




सुद्धक और प्रकाशक-

खेमराज श्रीकृष्णदास,

अध्यक्ष—“श्रीवेङ्कटेश्वर” रटीम-प्रेस, बम्बई.

सन् १८६८ के आक्ट २५ के अनुसार रजिस्ट्री सय हक प्रकाशकने अपने आचीन स्वया है.





कविवर श्रीलालशालियामजी वैश्य ।

अर्पण-पत्रिका.

श्रीमन्निखिलगुणनिकेतन परमोदार धीरचरित श्रेष्ठिवर्य्य श्रीखेमराज
श्रीकृष्णदासजी "श्रीवेङ्कटेश्वर" स्टीम् प्रेसाध्यक्ष बम्बई ।

महोदय !

देशी भाषाके ग्रंथकारोंको आश्रय देनेमें आपका अलौकिक यत्न है,
संस्कृत साक्षरमण्डलमें आपने उत्तम प्रतिष्ठा प्राप्त की है। हिन्दी
साहित्यका उद्धार करनेमें आप सदैव यत्नवान् रहते हो। योग्य-
का आदर करनेमें आप प्रसिद्ध परीक्षक और गुणज्ञ हो।
तथा गो, ब्राह्मण, अनाथ, विधवा और दीन भारत-
वासियोंकी रक्षा करनेमें आप सबसे अग्रसर हो।

अत एव आपके पवित्र नामके साथ यह

“भाषाटीकासमेत वङ्गसेन” ग्रन्थ

सप्रेम, सादर और सविनय

समर्पित किया

जाता है।

विनयावन्त,

शङ्करलाल हरिशङ्कर.

भूमिका ।

जबसे हिन्दूसौभाग्यका निष्कलङ्क मयंक अस्ताचलमें अस्त हुआ है, जबसे भारतलक्ष्मी अन्तर्हिता हुई है, जबसे आर्यभूमिमें वारंवार यवन लोगोंका पदार्पण हुआ है और जबसे राजनीति, समाजनीति और धर्मनीतिमें विशेष विप्लव (गोलमाल) हुआ है उस समयसे आर्य ऋषिप्रोक्त प्रायः सम्पूर्ण हिन्दूशास्त्र लुप्तसे हो गये और उन्हींके साथ भरताका महार्घरत्न और समस्त पृथ्वीका गौरवस्वरूप हमारा आयुर्वेद शास्त्र भी अतिशय शोचनीय अवस्थाको प्राप्त हो गया ।

हिन्दूराजाओंके समय समस्त शास्त्रोंकी चर्चा थी, विद्याकी उज्ज्वल आभा भारतवर्षको प्रकाशित करती थी, उस समय हमारा आयुर्वेदशास्त्र सम्पूर्ण चिकित्साशास्त्रोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ और भारतसन्तानकी स्वास्थ्यरक्षाका एकमात्र अवलम्ब समझा जाता था । आयुर्वेदीय चिकित्सा सम्पूर्ण चिकित्साओंकी मूल और भारतसन्तानकी माताके समान हितकारिणी चिकित्सा समझी जाती थी । पूर्वकालमें हमारे पूर्वपुरुष आयुर्वेदीय चिकित्साके प्रभावसे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यलाभ करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस पुरुषार्थचतुष्टयका साधन करते हुए दीर्घकालतक सुखपूर्वक संसारयात्राको व्यतीत करते थे । आयुर्वेदीय नियमानुसार चलनेसे यहाँ कदापि रोगसंकट उपस्थित नहीं होता था । कदाचित् कोई रोग उत्पन्न हो गया तो एक वार उससे मुक्त होनेपर फिर कभी भी किसीको रोगकी भीषण मूर्तिके दर्शन नहीं करने पड़ते थे। आयुर्वेदीय चिकित्सा पूर्ण होनेके कारण भारतसन्तानको कभी किसी विदेशी चिकित्साका आश्रय नहीं लेना पड़ता था । इस देशमें उत्पन्न होनेवाली साधारण वनस्पतियोंके द्वारा उसक रोग दूर किये जाते थे । हमारे देशमें उत्पन्न हुई औषधियाँ हमारी प्रकृतिके अनुकूल होनेके कारण प्राचीन महर्षियोंने ठीक हमारे लिये ही आयुर्वेदशास्त्रकी रचना की थी ।

आयुर्वेदशास्त्र केवल भारतमें ही सर्वोत्कृष्ट चिकित्साशास्त्र नहीं समझा जाता था, बल्कि कभी समस्त पृथ्वीभरके चिकित्साशास्त्रोंमें आयुर्वेदशास्त्रने अत्युच्च आसन ग्रहण किया था ।

जिस समय अरब और मिश्रदेश प्राचीनताके अभिमानमें चूर्ण थे, जब पुराने रोम और ग्रीक देश सभ्यताकी शोषीमें निमग्न थे, जिस समय सभ्यशिरोमणि पृथ्वीका आभूषणस्वरूप यूरोप देश असभ्यताके घोर अन्वकारसे आच्छादित था, तबसे ही हमारा आयुर्वेदशास्त्र सम्पूर्ण चिकित्साशास्त्रोंमें प्राचीन और सर्वोत्कृष्ट समझा जाता है ।

आयुर्वेदकी प्राचीनता और उत्कृष्टताके विषयमें कतिपय विदेशी विद्वानोंके मत नीचे लिखे जाते हैं ।

अबसे अनुमान तेरहसौ वर्ष पहले भुवन्नविजयी ग्रीकदेशाधिपति महावीर एलेक्जेंडर असाध्य रोगोंकी चिकित्साके लिये भारतवर्षीय वैद्योंको सदैव बड़े यत्न और सत्कारके साथ अपने यहाँ रखता था ।

बारहसौ वर्ष पहले बुगदादपति खलीफा हारुनरसीद आयुर्वेदीय चिकित्साको पृथ्वीभरकी सम्पूर्ण चिकित्साओंमें श्रेष्ठ समझकर अपनी शरीररक्षाके लिये सदैव भारतवर्षीय वैद्योंको अपने राजमंदिरमें उपस्थित रखता था ।

अयुल उल नामक प्रसिद्ध अरबी भाषाके ग्रन्थमें लिखा है कि अष्टम शताब्दीमें भारतवर्षके पीडित लोग बुगदादकी राजसभामें उपस्थित होकर आयुर्वेद और ज्योतिषशास्त्रकी शिक्षा देते थे । 'सरक, सर्सस और वेदान' यह तीन भारतवर्षसे अरबदेशमें लाये गये । मालूम होता है कि ये तीनों ग्रंथ चरक, सुश्रुत, निदान इन तीनोंके अपभ्रंश नामान्तर हैं ।

हकीम जालीनूस अपने रिखालेमें लिखते हैं कि, आयुर्वेदविद्या प्रथम भारतवर्षसे मिसरमें आई फिर मिसरसे यूनान और अरबदेशमें गई । वह यह भी लिखता है कि, मेरे गुरु अफलातूने भारतवर्षमें जाकर कालज्ञानके ३६ लक्षण और बहुतसे ग्रंथ पढ़े । उनमेंसे कुछ सारभाग संग्रह करके

एक काठकी तख्तीपर लिखाकर सदैव अपने गलेमें जामेके भीतर पहने रहते थे और कभी किसीको प्रगट नहीं होने देते थे । जब उनकी मृत्युका समय समीप आ गया तब उन्होंने अपनी स्त्रीसे कहा कि, इस तख्तीको मेरी कबरमें गाढ देना और इस विषयको अत्यन्त गुप्त रखना । स्त्रीने उनकी आज्ञानुसार उस तख्तीको पत्तिकी लाशके साथ कबरमें गाढ दिया । इस प्रकार उस तख्तीको कबरमें गड़ी हुई देखकर मुझे अत्यन्त आश्चर्य हुआ और मैंने विचार किया कि, गुरुजी आप तो मरे ही किन्तु अपना विद्याको भी मार गये । तब मैंने गुरुजीकी कबरको खोदकर तख्तीको निकाल लिया । पश्चात् उस विद्यामें मैंने अच्छे प्रकार योग्यता प्राप्त की, फिर मेरी देखादेखी अरसतू आदि विद्वानोंने हिन्दुस्तानमें जाकर आयुर्वेदको अध्ययन किया ।

सुप्रसिद्ध डॉक्टर ओयाज भी आयुर्वेदीय चिकित्साके विषयमें कहते हैं कि, हिन्दुस्तानकी आर्य्यचिकित्सा सम्पूर्ण चिकित्साओंकी मूल है और सम्पूर्ण संसार उसका कर्णी है ।

प्रोफेसर जे. एफ. रायल. डी. आर. एल्. एम्. जी. सी. जो कि, प्रथम बंगालकी सेनाके डॉक्टर थे और एशियाटिक व मेडिकल व फिजीकल सोसायटी एडिगवर्ग और मेडीको सर्जिकल सोसायटी लंडनके मेम्बर थे । वह अपने व्याख्यानमें कहते हैं कि—हिन्दुओंका आयुर्वेदशास्त्र बहुत प्राचीन है, अरब और यूनानवालोंसे कहीं पहला है । किसी समय अरबदेशमें आयुर्वेदीय चिकित्साका विशेष प्रचार था । अरबवालोंने पहले आर्य्यचिकित्सासे ही चिकित्साकी शिक्षा प्राप्त की थी । अभीतक उस देशमें श्वासरोगमें धतूरेके बीज और कृमिरोगमें कौचके बीज व्यवहार किये जाते हैं ।

सुप्रसिद्ध संस्कृतशास्त्रके पूर्ण विद्वान् प्रोफेसर हॉरेस, हेमैन, विलसन एम्. ए. एफ्. आर. एस्. प्रसीडेन्सी मेडिकल सोसाइटी कलकत्ता और प्रोफेसर ऑफ संस्कृत युनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फोर्ट जो कि, अत्यन्त विख्यात और संस्कृतविद्याके पूर्ण पारगामी माने जाते हैं, उन्होंने लिखा है कि—भारतवर्षमें बहुत पुराने समयसे चिकित्सा, ज्योतिष और दर्शन आदिके पारदर्शी विद्वान् विद्यमान हैं ।

जिस समय यूरोपदेशमें शरीरविद्या (एनाटमी) का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था उस समय भारतवासियोंने जैसी औपधिचिकित्सा और शस्त्रचिकित्सामें पारदर्शिता दिखाई थी उसी प्रकार शरीरविद्याकी भी उन्नति की थी ।

इत्यादि प्रमाणोंसे सिद्ध हांता है कि, हमारा आयुर्वेदशास्त्र सम्पूर्ण चिकित्साशास्त्रोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ है । हमारा आयुर्वेदशास्त्र जिस गम्भीर सत्यके ऊपर प्रतिष्ठित है उस प्रकार अन्य चिकित्सा शास्त्रोंकी दृढ नींव नहीं है । कारण कि—जिनका ज्ञान, भूत, भविष्यत् और वर्तमान इन तीनों कालके विषयको निरन्तर हस्तामलकवत् अवलोकन करता है, आयुर्वेदशास्त्र उन्हीं त्रिकालदर्शी मुनिवृन्दोंकी असाधारण अन्वेषणाका अपूर्व फल है ।

यद्यपि देशके सांभाग्यसे फिर आयुर्वेदकी आलोचनाका समय आ गया है । इस समय मृतप्राय आर्य्यचिकित्सा भारतसन्तानको अपनी ओर आकर्षित देखकर फिर जीवित होना चाहती है । यद्यपि अनेक भारतवासियोंकी आर्य्यचिकित्साके ऊपर फिर दिनपर दिन प्रीति बढ़ती जाती है परन्तु इसकी जितनी उन्नति होनी चाहिये उसके अभी शतांश भी नहीं हुई जो लोग देशमें शिक्षित और सभ्य संसारमें अग्रमर समझे जाते हैं उनकी देशी चिकित्सामें किञ्चिन् भी श्रद्धा नहीं है । उनकी दृष्टिमें देशी चिकित्सा अतीव घृणाके योग्य समझी जाती है ।

आज ऋल पाश्चात्य चिकित्सापद्धति अत्यन्त आढम्बर और सौन्दर्यपूर्ण होनेके कारण सभ्यसंसारमें श्रेष्ठ समझी जाती है । भारतके प्रत्येक स्थानमें बड़े बड़े विशाल मेडिकलहॉलखुले हुए हैं । उनमें लाल, पाली, हरी, अनेक प्रकारकी सुन्दर कोंचकी शीशियां नवीन भारतकी दृष्टिमें अपूर्व चकाचौंध उत्पन्न कर रही हैं ।

सुन्दर दीर्घाकृति साइनबोर्ड, विलायती, मेज, टेबुल, कुर्सी, विलायती बने हुए अनेक प्रकारके अस्त्र और यन्त्रोंकी बाह्य रचनायें भारतवासियोंके हृदयमें अद्भुत चमत्कार उत्पन्न कर रही हैं । सर्वत्र सभ्यसमाजमें डॉक्टरोंका ही आह्वान हो रहा है । वैद्य लोग विचारे मूर्ख या निरे गंवार समझे जाते हैं ।

भारतवर्षके प्रत्येक प्रान्तमें कितने ही मेडिकल कॉलेज, कितने ही अस्पताल, और कितने ही चिकित्सालय प्रतिष्ठित हैं । परन्तु हमारी आर्यचिकित्सा इन सर्व साधनोंसे शून्य होनेपर भी अन्य चिकित्साओंकी अपेक्षा अभीतक सर्वोत्कृष्ट पदपर प्रतिष्ठित है । प्रायः देखा जाता है कि जबतक रोग सहज होता है, जबतक बल मांसका क्षय नहीं होता और जबतक रोगजड़ नहीं पकड़ लेता तबतक रोगको दूर करनेके लिये अनेक डाक्टर समर्थ होते हैं, किन्तु जब रोग सांघातिक आकार धारण कर लेता है और जब शरीरगत रस, रुधिर, मांस, मज्जादि सप्त धातुमें विशेष रूपसे विकृत होकर आयु क्षीण हो जाती है उस समय कोई भी डॉक्टर रोगको दूर करनेके लिये समर्थ नहीं होता, केवल एक वैद्यमहाशय ही समर्थ हो सकते हैं ।

इसमें संदेह नहीं कि यदि अब भी आयुर्वेदशास्त्रकी अच्छे प्रकारसे आलोचना कीजाय एवं शिक्षित समाज आयुर्वेदीय चिकित्साका अनुसरण करे तो सम्पूर्ण जगत् अवश्य मुक्तकंठसे आयुर्वेदकी श्रेष्ठता स्वीकार करके उसका एकान्त पक्षपाती बन जायगा ।

चरकमें लिखा है—“त्रिविधं खलु रोगविशेषज्ञानं भवति । तद् यथा—आप्तोपदेशः प्रत्यक्षमनुमानश्चेति । त्रिविधे त्वस्मिन् ज्ञानसमुदाये पूर्वमाप्तोपदेशात् ज्ञानं ततः प्रत्यक्षानुमानाभ्यां परीक्षोपपद्यते । किं ह्यनुद्दिष्टपूर्वं प्रत्यक्षानुमानाभ्यां परीक्ष्यमाणो विद्यात्” (चरक-विभांनस्थान-चतुर्थ अध्याय) ।

अर्थात् रोगका ज्ञान तीन प्रकारसे होता है जैसे—आप्तोपदेश—प्रत्यक्ष और अनुमानसे ।

इन तीनों उपायोंमें प्रथम आप्तोपदेशके द्वारा (रोगका) ज्ञान प्राप्त होता है फिर प्रत्यक्ष और अनुमानके द्वारा उसकी परीक्षा होती है । किन्तु जो पहले ही आप्तोपदेशके द्वारा जाना नहीं गया उसकी प्रत्यक्ष और अनुमानके द्वारा किस प्रकार परीक्षा हो सकती है ?

चरकके इस महावाक्यके द्वारा यह कदापि सम्भव नहीं हासकता कि आप्तोपदेशवार्जित, प्रत्यक्ष और अनुमानपरायण पाश्चात्यपंडितगण सैकड़ों वर्षों जगत्को वृथा विज्ञानके धुर्यके द्वारा उद्धासित करनेपर भी अभीतक प्रकृतसत्यतक पहुँचकर कृतकार्य हुए हों ।

देखो ! आप्तोपदेशके द्वारा किस प्रकार ज्ञान प्राप्त होता है उसको यहां दिखाते हैं। आप्तगण कहते हैं कि—यह रोग रोगका प्रकोपक है, इसप्रकार रोगका पूर्वरूप, रूप, साध्यासाध्यलक्षणआदि प्रथम आप्तोपदेशके द्वारा जानकर पश्चात् प्रत्यक्ष और अनुमानके द्वारा उसकी परीक्षा आरम्भ करते हैं । जैसे—राजयक्ष्माके उत्पन्न होनेसे पहले रोगीको स्वप्नमें काक, शुक और मयूरादिके दर्शनका ज्ञानका होता है, परन्तु बिना आप्तोपदेशके हम उक्त स्वप्नके वृत्तान्तको किस प्रकार जान सकते हैं ? और रोगीके निकट किस प्रकार स्वप्नसम्बन्धी विषयक बात पूछ सकते हैं ? और जो हम आप्तोपदेशके द्वारा पहलेसे ही यह बात जान लें कि राजयक्ष्माके पूर्वरूपमें उपर्युक्त काक, शुकआदिक पक्षी दिखाई देते हैं तब तो किंचित् लक्षण प्रतीत होते ही स्वप्नसम्बन्धी सम्पूर्ण विषय रोगीसे अच्छे प्रकार मालूम करके राजयक्ष्माका सहजमें निर्णय कर सकते हैं ।

आप्तगण कहते हैं कि—“असाध्यो बलवान् यश्च केशसीमन्तकृज्ज्वरः”

अर्थात् जिस उ्वरमें रोगीके बालोंमें गांठेसी गुंदा जाती है वह उ्वर अत्यन्त बलवान् और असाध्य जानना ।

पहले हम यदि आप्तोपदेशके द्वारा इन अरिष्टके लक्षणोंको नहीं जानते तो रोगीकी परीक्षा करनेके समय उसके बालोंकी ओर कभी लक्ष्य नहीं देते ?

महर्षि कहते हैं—

“वायुः पित्तं कफश्चोक्तः शरीरे दोषसंग्रहः ।

मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च” ॥

अर्थात्—वात, पित्त और कफ यह तीन शारीरिक दोष और रज, तम यह दो मानसिक दोष इन सम्पूर्ण शारीरिक और मानसिक दोषोंके विकृत होनेसे सब प्रकारके शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न

होते हैं। जो आप्तोपदेशके द्वारा पहलसे ही यह तत्त्व नहीं मालूम होता तो वात, पित्त, कफ (शारीरिक दोष) और रजस्तम (मानसिक दोष) के विषयमें किस प्रकार हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं , अतएव इनके प्रकोप और शमनादिके सम्बन्धमें सर्वथा अन्धकार होनेसे अन्यान्य चिकित्साशास्त्रोंने उपर्युक्त दोषोंके विषयमें कुछ भी उल्लेख नहीं किया है ।

रोगोत्पत्ति होनेसे पहले ही रोगको कहनेवाले आप्तोपदेशका परिहार करके केवल प्रत्यक्ष और अनुमानके द्वारा रोगका ज्ञान प्राप्त करना कदापि सम्भव नहीं हो सकता ।

आयुर्वेदाचार्य महात्मा महर्षिगण कहते हैं कि—भिथ्या आहार और विहारादिके द्वारा वातपित्तादि दोष विकृत अथवा वर्द्धित होकर रसरक्तादि सप्तधातुओंको विकृत करके धातुवैषम्य अथवा अनेक प्रकारके रोगोंकी उत्पत्ति करते हैं ।

इन मुख्य दोषोंके विषयमें अच्छे प्रकारसे परिचय नहीं होनेसे किसप्रकार रोग और चिकित्साका ज्ञान होना सम्भव हो सकता है ?

आज दश ग्यारह वर्षसे देशका सर्वनाश करनेवाले प्लेगकी चिकित्साके लिये संसारमें चारों ओर कोलाहल मच रहा है । इसको किसी प्रसिद्ध रोगके नामके साथ जानू देने एवम् इसकी यथार्थ चिकित्साकी अन्वेषणाके लिये आज कितनेक वर्षोंसे गवर्नमेन्टके द्वारा उत्साहित किये हुए बहुतसे विज्ञानविहारड डॉक्टर नियत हुए हैं । वे अपने अपने कल्पित उपायोंका अवलम्बन करके अनेक प्रकारके यत्न और औषधियोंकी कल्पना कर रहे हैं । किन्तु उनकी चिकित्सासे प्लेगके रोगियोंका अभीतक कुछ भी हितसाधन नहीं हुआ ।

जहाँ चिकित्साका नाम सुनकर असाध्य रोगी भी एकवार निराशाको त्यागकर शय्यासे उठ बैठते हैं वहाँ आज उक्त चिकित्साके नामसे रोगी एकदम भयभीत हो जाते हैं ।

परन्तु आयुर्वेदज्ञ वैद्य प्रथम आप्तोपदेशके द्वारा इसको ज्ञानके अधीन करके पश्चात् इसकी चिकित्सा करनेमें जरा भी विचलित नहीं होते ।

महर्षि चरकाचार्य अपनी संहितामें लिखते हैं कि—

“विकारनामाकृशलो न जिह्वियात् कदाचन ।

नहि सर्वविकाराणां नामतोऽस्ति ध्रुवा स्थितिः ” ॥

अर्थात् जो कभी किसी रोगका नाम समझमें नहीं आवे तो वैद्यको उसमें लाजित नहीं होना चाहिये क्योंकि शास्त्रमें कुछ रोगोंके नाम लिखे नहीं हैं । रोग अनन्त है । उन सबका वैद्यक ग्रंथोंमें भी विवरण मिलाना सर्वथा असम्भव है । इस विषयमें महर्षि चरक कहते हैं कि—

“स एव कुपितो दोषः समुत्थानविशेषतः ।

स्थानान्तरगतश्चैव जनयत्यामयान् बहून् ॥

तस्माद्विकारप्रकृतिरधिष्ठानान्तराणि च ।

समुत्थानविशेषाश्च बुद्ध्वा कर्म समाचरेत्” ॥

अर्थ—एक दोष कुपित होकर कारणाविशेषसे शरीरके भिन्न २ स्थानोंमें जाकर नानाप्रकारके रोगोंको उत्पन्न करता है इस कारण रोगकी प्रकृति, स्थान और निदानकी विशिष्टतापर विशेष ध्यान रखकर चिकित्सा करनी चाहिये ।

अपि च “ यथा शकुनयः सर्वदिक्षु परिपतन्तः स्वच्छायां नातिवर्तन्ते तथा स्वधातुवैषम्ये निमित्ताः सर्वविकारा वातपित्तकफा नातिवर्तन्ते । वातपित्तकफानान्तु पुनः समुत्थानसंस्थानप्रकृतिविशेषान् अभिसर्षीक्ष्य तदात्मकानपि च सर्वविकारांस्तानेवोपादिशन्ति बुद्धिमन्तः ”

अर्थ—जिम प्रकार पक्षी समस्त दिशाओमें परिभ्रमण करनेपर भी अपनी छायाको उल्लंघन करनेके लिये समर्थ नहीं होता उसी प्रकार सम्पूर्ण रोग स्वधातुके विकृत होनेसे उत्पन्न हुए होनेपर भी वात,

पित्त और कफके उलंघन करनेको समर्थ नहीं होते । इस देशके विद्वानोंने वात, पित्त और कफका निदान, म्यान, लक्षण, प्रकृति और समयके विचारको हृदयङ्गम करके समस्त रोगोंको वात, पित्त और कफ इस दोषत्रयके अन्तर्गत किया है । इस कारण देश, काल और पात्रके भेदसे रोग चाहे किसी प्रकारका नवीन आकार क्यों न धारण करे किन्तु वह वातज, पित्तज अथवा श्लेष्मिक, द्वन्द्वज, अथवा सान्निपातिक इनमेंसे किसी न किसी प्रकारका अवश्य होगा । आयुर्वेदीय चिकित्सक ऐसे नवीन रोगोंको देखकर कदापि भयभीत नहीं होते । महर्षियोंने समस्त रोगोंको वात, पित्त और कफ इन तीन दोषोंके अन्तर्गत करके जगतका महान् उपकार किया है । कितने ही मनुष्योंका कहना है कि—जिस प्रकार डॉक्टर लोग अनेक यन्त्रोंके द्वारा सहजमें ही रोगोंका निर्णय करते हैं, उस प्रकार वैद्यलोग कदापि सहजमें रोगका निर्णय नहीं कर सकते । किन्तु उनकी यह बात कुछ युक्तिसंगत नहीं जान पड़ती । क्योंकि—देखो ! राजयक्ष्मा या हृदयरोगमें डॉक्टरलोग (स्टेथास्कोप) नामक यंत्रके द्वारा शब्दके तारतम्यसे रोगका सिद्धान्त निश्चय करते हैं । किन्तु वैद्यलोगोंका केवल नाडीपरीक्षाके द्वारा स्पर्श मात्रके तारतम्यसे रोगका निर्णय करना जितना क्लिष्ट और सूक्ष्म है उतना स्टेथास्कोपके द्वारा वक्षस्थल या हृदयकी परीक्षा करके शब्दके तारतम्यको जानना कठिन और सूक्ष्म नहीं है । इसके अतिरिक्त महर्षियोंने आयुर्वेदीय चिकित्सकोंके लिये एक और भी उत्तम सुभीता कर दिया है कि उन्होंने प्रत्येक रोगके इस प्रकार वैशेषिक लक्षण वर्णन किये हैं कि जिनके द्वारा नाडीके बिना स्पर्श किये ही वैद्य महाशय यक्ष्मा और हृदय आदि रोगोंका सहजमें ही निश्चय कर सकते हैं । किन्तु डॉक्टर महोदय स्टेथास्कोपके सिवाय अन्य किसी प्रकार भी उक्त रोगोंके निर्णय करनेमें समर्थ नहीं हो सकते । अत एव जिन डॉक्टरोंकी श्रवणशक्ति नष्ट होगई है, उनके लिये राजयक्ष्मा और हृदयरोगका निर्णय करना सर्वथा असम्भव जान पड़ता है । विशेषकर जिस स्थानमें विशेष कोलाहल हो रहा हो अथवा चित्तकी प्रवृत्ति किसी अन्य विषयमें लगी हो ऐसे अवसरपर डॉक्टर महोदय कदापि उक्त रोगकी परीक्षा करनेमें कृतकार्य नहीं हो सकते । अतएव स्पष्ट सिद्ध होता है कि आयुर्वेदीय वैद्योंका रोगपरीक्षाका प्रकार अत्यन्त समीचीन है ।

अन्तर्विद्रवि (यावत्सु) रोगके विषयमें कुछ चरकके वचन लिखते हैं । “ अथासां विद्रधीनां साध्यासाध्यत्वविशेषविज्ञानार्थं स्थानकृन्लिगविषमुपदेक्ष्यामः । तत्र प्रधानमर्मजायां विद्रध्यां हृद्भट्टन-तमकप्रमोहकासाः क्लोमजायान्तु विपाका मुखशोपगलग्रहाः, यकृज्जायां श्वासः फ्रीहजायां मुखश्वासो-परोधः वृकजायां पार्श्वपृष्ठकटिग्रहः, नाभिजायां हिक्का, कुक्षिजायां कुक्षिपार्श्वान्तरांसशूलं, वंक्षणजायां सकृथिसादः, वस्तिजायां कृच्छ्रमूत्रपूतिवर्चस्त्वञ्चेति—

अर्थात् हृदयमें विद्रवि होनेपर हृदयमें पीडा, तमक, श्वास, इन्द्रियोंमें अज्ञान और खांसी उत्पन्न होती है । क्लोमस्थानमें विद्रधि होनेसे पियास, मुखशोप और गलस्तम्भरोग उत्पन्न होता है । यकृतमें विद्रधि होनेसे श्वास और फ्रीहाके स्थानमें विद्रधि होनेसे श्वासोच्छ्वासका अवरोध, वृकदेशमें विद्रधि होनेसे पार्श्व, पृष्ठ और कटिप्रदेश स्तब्ध होजाता है । नाभिमें विद्रधि होनेसे हिक्कारोग उत्पन्न होता है । कुक्षिमें विद्रधि होनेसे कोख, पसवाड़े और स्कंधप्रदेशोंमें शूल होता है । वंक्षणमें विद्रधि होनेसे ऊरुदेशमें अवसन्नता होती है । वस्तिमें विद्रधि होनेसे मूत्रका कठिनतासे उतरना और विष्टामें दुर्गन्ध होती है । इत्यादि वैशेषिकलक्षणोंके द्वारा वर्तमान आयुर्वेदीय चिकित्सक स्थानीय अथवा यांत्रिकरोगोंके निर्णय करनेमें कदापि असमर्थ नहीं हो सकते । किन्तु यहां यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि, यांत्रिक परीक्षाके द्वारा यह समस्त रोग और भी स्पष्टरूपसे विदित हो जाते हैं ।

शरत्कालमें जब पित्तज्वर कुपित होता है उसमें टेम्परेचर अर्थात् शरीरकी गर्मी अत्यन्त अधिक १०३ १०४ डिग्री तक हो जाती है, जीभ पीली पड़ जाती है, आहारमें एक साथ अनिच्छा होजाती है, तृषा, प्रलाप और हल्दीके समान पतले दस्त होने लगते हैं । डॉक्टर लोग ऐसे रोगीको देखकर लक्षणोंके बाहुल्यमें अतिशय भयभीत होजाते हैं और तत्काल उसको रेमिटेडकीवर मान लेते हैं । उस समय

रोगीकी तात्कालिक अवस्थाको देखकर केवल लक्षणदर्शी डॉक्टर भ्रममें पड़ जाते हैं । परन्तु वैद्य महाशय ऐरे रोगीको देखकर तत्काल पित्तके प्रकोपका समय समझकर अनायास पित्तज्वर निश्चय करते हैं । शरत्कालमें पित्तज्वर प्राकृत होता है अतएव वह उससे कुछ भी विचलित नहीं होते क्योंकि “प्राकृतः सुखसाध्यस्तु वसन्तशरदुद्भवः” अर्थात्-वसन्त अथवा शरत्कालमें प्राकृतज्वर सुखसाध्य होता है । अब प्रसंगवश प्राकृतज्वरके लक्षण यहां लिखते हैं-

“ वर्षाशरद्वसन्तेषु वाताद्यैः प्राकृतः क्रमात् ” ।

अर्थात् वर्षाकालमें वातज्वर, शरत्कालमें पित्तज्वर और वसन्तऋतुमें कफज्वर प्राकृत होते हैं । अतएव जब शरत्कालमें पित्तज्वर कुपित होता है तब वह चाहे किना ही भयंकर आकार क्यों न धारण करे किन्तु गन्धर्वनगरके समान शीघ्र ही नष्ट होजाता है । इस विषयमें चरक किस प्रकार अपना वैज्ञानिक मत प्रकट करते हैं, यहां उसे उद्धृत करते हैं:-

“ ज्वरे तुल्यर्तुदोषत्वं प्रमेह तुल्यदूष्यता ।

रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम् ” ॥

अर्थात् ज्वरमें यदि दोषोंके साथ ऋतुकी तुल्यता हो, प्रमेहमें दोषोंके साथ दूष्यकी तुल्यता हो और रक्तगुल्म यदि पुरातन होजाय तो उपर्युक्त ज्वर, प्रमेह और रक्तगुल्म यह तीनों सुखसाध्य होते हैं । किन्तु अन्यान्य रोग दोषोंके साथ ऋतुकी तुल्यता होनेसे दोषोंके साथ दूष्यकी तुल्यता होनेसे अथवा पुरातन होजानेसे अत्यन्त कष्टसाध्य होजाते हैं । यहां ऋतुके साथ दोषोंकी तुल्यता क्या है उसको संक्षेपरूपसे लिखते हैं । शीतकालमें सूर्यकी किरणोंकी सृष्टता, दिनकी अल्पता, रात्रिके समयकी वृद्धि और चन्द्रमाकी किरणोंकी प्रबलता आदिके होनेसे उत्पन्न हुए गीतके प्रभावसे मनुष्योंके शरीरमें कफ संचित होता है फिर पौषके महीनेसे सूर्यके उत्तरायण होनेसे सूर्यकी किरणोंके द्वारा मनुष्योंके शरीरमें संचित हुआ कफ क्रमसे द्रवीभूत होकर वसन्तऋतुमें कुपित होता है इस कारण वसन्तऋतुको कफका समय निश्चय किया है । अतएव कफदोषके साथ वसन्तऋतुकी तुल्यता होनेसे वसन्तकालोत्पन्न कफज्वर प्राकृत है । प्राकृतज्वर चाहे किना ही भयंकर रूप क्यों न धारण करे किन्तु वह सुखसाध्य ही होता है । इसप्रकार वर्षाऋतुके शीतसे अभ्यस्त मनुष्योंका शरीर शरत्कालमें हठान् सूर्यकी किरणोंसे संतापित होजाता है ।

वर्षामें संचित हुआ पित्त शरत्कालमें प्रकुपित होता है इसकारण शरत्काल पित्तका समय है । अतएव पित्तदोषके साथ शरदऋतुकी तुल्यता होनेसे शरत्कालमें पित्तज्वर प्राकृत है । इसलिये इसकी चाहे कितनी ही भयंकर आकृति क्यों न हो किन्तु प्रकृत आयुर्वेदीय चिकित्सकगण उसको देखकर किंचित् मात्र भी भयभीत नहीं होते । यह रोग अन्य ऋतुओंमें उत्पन्न होनेसे वैकृत और अत्यन्त दुःसाध्य होता है ।

उक्त साधारण रोगोंमें डॉक्टरोंके भयभीत होजानेका कारण केवल वात पित्त और कफकी अतन्निज्ञता होती है । डॉक्टर महोदय मूत्रमें शर्करा (चीनी) को देखते ही अत्यन्त चमत्कृत हो जाते हैं तथा रोगको अत्यन्त गहन बनाने लगते हैं । किन्तु वैद्य महाशय शर्कराको देखकर कदापि आकुलित नहीं होते । कारण कि-वह अच्छे प्रकारसे जानते हैं कि-कफजनित दश प्रकारके प्रमेहोंमें शर्करा प्रमेह भी होता है सो अत्यन्त सुखसाध्य है ।

इस समय पश्चिमीय अस्त्रचिकित्साकी इतनी उन्नति देखकर अनेक भारतवासी कहते हैं कि-यूरोपीय अस्त्रचिकित्सा सम्पूर्ण चिकित्साओकी अपेक्षा अधिक फलप्रद एवं सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा है । किन्तु चरक, सुश्रुत प्रभृति आयुर्वेदीय ग्रंथोंके पढ़नेसे उनका यह भ्रम सहजने ही दूर हो सकता है । इस देशमें भी कभी आर्य्यअस्त्रचिकित्साने विशेष उन्नति की थी । सुश्रुतके मतसे सम्पूर्ण अस्त्रचिकित्साओकी अपेक्षा आयुर्वेदीय अस्त्रचिकित्सा अतिशय श्रेष्ठ समझी जाती है ।

पूर्वकालमें अस्त्रचिकित्साने इतनी उन्नति की थी कि जिसकी रामायणादि पुराणोंमें अभीतक कथा सुनाई पड़ती है ।

पूर्वकालमें अस्त्र, खड्ग, गदा, मुष्टि और प्रस्तरादिके द्वारा युद्ध होता था । एक योद्धा क्रमसे आठ दश दिनपर्यन्त युद्ध करता रहता था । उस समय धनुषके द्वारा छोड़े हुए धाण सम्पूर्ण शरीरमें विंधजाते थे । शस्त्राघातसे शरीरमें अनेक प्रकारके क्षत होजाते थे एवम् अस्थि चूर्णित, भग्न और स्फीत होकर घोर पीड़ा उत्पन्न होजाती थी । उस समय हमारे पूर्वचिकित्सक शल्योद्धार, व्रणरोपण, व्रणशोधन, भग्नसंधानादि चिकित्साओंके द्वारा तत्काल व्रणकी पीड़ाका शमन कर देते थे । यहाँतक कि दूसरे दिन ही योद्धा लोग फिर स्वस्थ और सबल शरीरसे संप्राम करनेमें तत्पर होजाते थे ।

इस प्रकार अनेक प्रकारकी घटनाओंको देखनेसे स्पष्टरूपसे विदित होता है कि प्राचीन समयमें इस देशमें अस्त्रचिकित्साने अत्यन्त उन्नति की थी । रामायणमें लिखा है कि—जब रावणने लक्ष्मणके हृदयमें शक्ति(शैल)का प्रहार किया था उस समय लक्ष्मणके वक्षस्थलमें क्षत और अस्थि भग्न होकर रुधिरका वमन होने लगा था । तब सुपेण वैद्यने विशल्यकरणी, अस्थिसंवाहकारिणी आदि कई एक औषधियोंके द्वारा तत्काल रुधिरको बंद करके अस्थिसंधान और व्रणरोपण किया करी थी । यह रीति आज तक भी हमारे देशमें प्रचलित है । रुधिरका वमन या रुधिरका स्राव हानेपर विशल्यकरणी व्यवहार की जाती है और आवा-तजनित क्षतरोगमें अस्थिसंहारिणी व्यवहृत होती है ।

अब आयुर्वेदीय अस्त्रचिकित्सा किस क्रमसे अवनतिको प्राप्त हुई सो कहते हैं । पहले इस देशके समस्त ऋषि, मुनि, महात्मा, योगी, बड़े बड़े विद्वान्, पंडित, वैद्य और सर्वसाधारण मनुष्योंको देशी लता वृक्ष आदि वनौषधियोंके प्रत्यक्ष और आश्चर्यजनक गुण ज्ञात थे । अतएव वे अत्यन्त भयंकर क्षत और अस्थिभग्नादि रोगोंमें आश्चर्य और प्रत्यक्षफलप्रद साधारण लतावृक्षादि वनौषधियोंका प्रयोग करके सहजमें ही बड़े २ जटिल रोगोंको दूर कर देते थे । केवल अस्त्रचिकित्साके लिये कभी किसी भारतवासीको अन्य वैद्यका आह्वान नहीं करना पड़ता था ।

इस प्रकार जब साधारण वनौषधियोंके द्वारा विना अस्त्रचिकित्साके ही बड़े २ भयंकर व्रणादि रोग सहजमें आरोग्य होने लगे तब अस्त्रचिकित्सासे भारतवासियोंको अश्रद्धा और भय उत्पन्न होने लगा । उससे यहाँतक अश्रद्धा हुई कि, वैद्यमहाशय भी क्रम २ से अस्त्रचिकित्साको बिलकुल भूल गये और अस्त्र-शिक्षाके पठन पाठनका सर्वथा त्याग कर दिया । इस प्रकार पूर्वोक्त कारणोंसे देशी अस्त्रचिकित्साकी इतनी अवनति होगयी । अभी कुछ काल पहले इस देशमें बड़े २ वैद्य विद्यमान थे, वह अनेक दुस्तर और भयंकर, क्षतादि रोगोंको एकमात्र साधारण वनौषधियोंके द्वारा आराम कर देते थे । किन्तु समयके परिवर्तनसे उक्त वैद्योंकी संख्या क्रमक्रमसे अल्प होती गई । एवं देशी औषधियोंके ऊपरसे उच्चश्रेणीके लोगोंका विश्वास और श्रद्धा उठती गई । सर्वत्र डॉक्टरों चिकित्साका प्रचार हो गया इससे प्रायः प्रत्यक्षफलप्रद समस्त देशी औषधियाँ छिप गई । आजकल डॉक्टर लोग जिन बड़े २ व्रणोंको विना अस्त्रचिकित्साके द्वारा आराम नहीं कर सकते, उन व्रणोंको पहिले वैद्यलोग साधारण औषधियोंसे आरोग्य कर देते थे । अबतक भी कहीं २ साधारण आयुर्वेदीय द्रव्योंका अनुल प्रभाव देखा जाता है । पश्चिमीय चिकित्सापद्धतिके अनुसार प्रायः सब प्रकारके व्रण मुख होजानेपर विना अस्त्रचिकित्साके कदापि आरोग्य नहीं होसकते । परन्तु आयुर्वेदीय वैद्य सब प्रकारके व्रणोंमें मुख होजानेपर या विना मुख हुए ही केवल सामान्य प्रलेपादिकी औषधियोंसे आरोग्य कर देते थे ।

भारतवर्षमें नाना जातिके लता वृक्ष विद्यमान हैं । वह केवल प्रकृतिकी शोभा बढानेके लिये ही नहीं है बल्कि अनन्तगुणसम्पन्न दिव्य वनौषधियाँ हैं । पहले इन ही वनौषधियोंके प्रभावसे भारतवासी सब प्रकारके रोगोंसे वंचित रहकर स्वस्थ शरीरसे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे । आजकल इनही वनौषधियोंकी आलोचनाके अभावसे भारतवासी चिररोगी, कायर और दान हारहे हैं । किन्तु जो सर्वदा सत्यके ऊपर स्थित है उनकी बार बार अवनति होनेपर भी अन्तमें अवश्य जय होती है । जगत्के

इसी निष्पानुसार अब फिर आयुर्वेदकी उन्नतिका समय परिवर्तित होता दीखता है । अवनतिके वोरान्धका को समाप्त करके आयुर्वेदशास्त्र अब फिर धीरे २ उन्नतिकी अरुण किरणोंको प्रकीर्ण करने लगा है । भारतके प्रत्येक प्रांतमें आयुर्वेदशास्त्रकी यत्किंचित् चर्चा सुनाई देने लगी है । अनेक भारतवासी पश्चिमीय चिकित्साके चाकचक्यपर मोहित होनेपर भी एकवार फिर निराधार आर्य्यचिकित्साकी ओर झुकते दिखाई देते हैं ।

बंगदेशवासी पंडितलोग आर्य्यचिकित्साको भारतकी मुख्य चिकित्सा बनानेका यत्न कर रहे हैं । उन्हींके सह उद्योगसे भारतके अनेक स्थानोंमें आज अनेक आयुर्वेदीय विद्यालय, पाठशालायें, चिकित्सालय, शिक्षालय और औषधालय स्थापित हो रहे हैं । जिस प्रकार बंगदेशी विद्वन्मंडली आयुर्वेदका वास्तविक उद्धार करनेमें सर्वथा कटिबद्ध हो रही है उसी प्रकार दक्षिण, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य-प्रदेश और पश्चिमोत्तरदेशके मनुष्य भी आयुर्वेदके प्रचारके लिये धीरे धीरे अग्रसर होने लगे हैं । इस प्रकार क्रमशः हमारी भारतकी प्राचीन संस्कृत विद्या फिर उन्नतिके मार्गमें पद स्थापन करती दिखाई देती है । अनेक प्रकारके प्राचीन और अर्वाचीन संस्कृत ग्रंथ मूल और टीका समेत मुद्रित होते जाते हैं । एवं चरक, सुश्रुत, वाग्भट, भावप्रकाश, माधवनिदान, शार्ङ्गधर, चक्रदत्त और हारीतसंहिता आदि कितने ही आयुर्वेदीय ग्रंथ भी संस्कृत टीका और भाषाटीका समेत छपकर प्रकाशित हो रहे हैं ।

यद्यपि आजतक उपर्युक्त चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी चरक, सुश्रुतादि अनेक प्राचीन आर्षग्रन्थ विविध प्रकारसे अनेक स्थानोंमें छप चुके हैं और छपते जाते हैं किन्तु इनके द्वारा सर्वसाधारणको अधिक लाभ होता नहीं दीखता । कारण कि, चरक, सुश्रुतादि ग्रन्थ विषयोंके वाहुर्य और गहनतासे आजकलके अल्पबुद्धिवाले मनुष्योंको अधिक उपयोगी नहीं हो सकते । एवं भावप्रकाशादि अर्वाचीन ग्रंथ उक्त विषयोंकी संक्षिप्तता और अल्पता होनेके कारण सबको लाभकारी नहीं हो सकते । अतएव इसी अभावको दूर करनेके लिये आयुर्वेदभण्डारके उज्ज्वलरत्नस्वरूप इस “बंगसेन” ग्रंथका प्रादुर्भाव हुआ है ।

वैद्यकभण्डारमें बङ्गसेन बहुमूल्य महार्घरत्न है । इसकी चिकित्सापद्धति अन्य चिकित्साशास्त्रोंकी अपेक्षा अतिशय श्रेष्ठ है । जो विषय अन्य चिकित्साशास्त्रोंमें अपूर्ण है वे इसमें पूर्णरीतिसे वर्णन किये गये हैं । और, जो विषय अन्य ग्रंथोंमें अत्यन्त क्लिष्टतासे वर्णित है वे इसमें अत्यन्त सरल रीतिसे निरूपण किये गये हैं । ग्रंथकारने इसमें कितने ही नवीन रोगोंका निदान और चिकित्सा लिखी है जो कि आजकल इस देशमें अधिकतासे पाये जाते हैं । किन्तु अन्य वैद्यकग्रंथोंमें उन रोगोंका कहीं नामतक भी नहीं लिखा है । ग्रंथकारने विशेषकरके इसमें प्राचीन आर्ष ग्रंथोंके क्रमसे अनुभूत सिद्धयोग कहे हैं ।

जिस प्रकार इसकी चिकित्साका क्रम अतिशय श्रेष्ठ है उसी प्रकार रोगनिर्णय, वातपित्तादिदोषानिरूपण, रसरक्तादि सप्तधातुनिरूपण, वात, पित्त और कफके क्रमसे देश, काल एवं रूग्ण प्रकृतिका वर्णन, वसन्तादि षट्काल, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, औषधियोंके गुण दोष, निबन्धुखंड, कालज्ञान, अष्टविधपरीक्षा आदि अन्यान्य विषय भी अन्य ग्रंथोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ कहे हैं । जो विषय अन्य ग्रंथोंमें आठ आठ दश २ श्लोकोंमें वर्णित हैं, वे इसमें केवल एक दो श्लोकोंमें अत्यन्त सुगम रीतिसे कहे हैं । इस ग्रंथके प्रयोगोंके अनेक ग्रंथकार अपने २ ग्रंथोंमें संग्रह करते हैं इससे भी इस ग्रंथकी उत्कृष्टता सिद्ध होती है । भिषक्जिरोमणि बङ्गसेनने ठीक आजकलके मनुष्योंकी प्रकृतिके अनुसार ही इसकी रचना की है । इस ग्रंथके प्रयोग चक्रदत्त, भयञ्जरत्नावली आदि अनेक ग्रंथोंमें पाये जाते हैं । आयुर्वेदीय विद्यालयोंमें यह ग्रंथ अत्यन्त आदरपूर्वक पढ़ाया जाता है ।

इस ग्रंथके आधारसे जाना जाता है कि इसके बनानेवाले भिषग्वर बंगसेनका जन्म विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दीमें बंगालके कान्तिकावास या कान्तिनगरमें गदाधर वैद्यके घर हुआ था । बंगसेनका समय चक्रपाणिदत्तसे पहले जान पड़ता है । क्योंकि इस ग्रंथके घृत तैलादि अनेक सिद्धप्रयोग चक्रपाणिदत्तने अपने ग्रंथमें संग्रह किये हैं ।

“ चक्रपाणिदत्त वीरभूमि देशवासी प्रसिद्ध रोध्रवल नामक दत्तकुलमें उत्पन्न नारायणदत्तका पुत्र और नरदत्तका शिष्य था और वह वैद्य भानुदत्तके अन्तरंगभावसे गौड़राज्यकी पाकशालाका अध्यक्ष हुआ था । इसका प्रादुर्भाव ७५० के लगभग जान पड़ता है ।

कितने ही वैद्य कहते हैं कि बंगसेन वैद्य अवसे अनुमान ५०० सौ वर्ष पहले मुजफ्फरपुर जिलेके कांति नगरमें विद्यमान थे । हमारे प्रियवर मित्र वैद्यराज रामेश्वरानन्दजीने विशेष अनुसंधानके द्वारा-निश्चय किया है कि बंगसेन अवसे ४०० वर्ष पहिले बंगालके पूर्व विभागके श्रीपुर राज्यमें उपास्थित थे । हमने भी, बंगसेनकी जीवनीके लिये बहुत प्रयत्न किया, किन्तु शीघ्रताके कारण ठीक ठीक उनकी जाति, कुल, समय आदिका पता मालूम नहीं होसका इसका हमे खेद है ।

यद्यपि यह ग्रन्थ अवतक संस्कृतमूल दो तीन स्थानोमें छप चुका है, किन्तु केवल मूल मात्र होनेके कारण सर्वसाधारणको उपयोगी नहीं होसकता ऐसा विचारकर सुप्रसिद्ध विद्वद्गुरु श्रीमदायुर्वेदोद्धारक कविर ज लाला शालिग्रामजीने इस बंगसेनका अनुवाद करना प्रारम्भ किया, किन्तु उसकी समाप्तिके पूर्व ही आप यक्षमारोगसे पीडित होगये । लालाजीने यद्माके एक दो लक्षण प्रतीत होते ही आठ नौ महीने पहले ही मुझसे कह दिया था कि “ अवकी चार मुझे, ‘जराजनित शोष’ हुआ है, अतएव मेरे शरीरका विश्वास मत करना और इस बङ्गसेनका अनुवाद पूर्ण कर देना तथा अन्यान्य भैषज्यभास्कर प्रभृति मेरे अपूर्ण ग्रंथोंकी पूर्ति कर देना” । मैंने उक्त कविराजकी आज्ञाको सर्वथा शिरोधार्य समझकर इसका अनुवाद पूर्ण किया और यथा अवकाश लालाजीके अन्यान्य ग्रंथोंकी भी पूर्ति की जायगी ।

लाला शालिग्रामजीका जन्म वैक्रमीय संवत् १८८८ आश्विन शुक्ल तृतीयाको मुसद्वादके सुप्रसिद्ध सेठ लाला आनन्दस्वरूपके घर हुआ । आपकी रुचि बालकपनसे ही विद्या और कला कौशलमें विशेष जान पड़ती थी । यद्यपि आपकी अवस्थाका बहुतसा पूर्वभाग बाल्यक्रीडामें ही व्यतीत हुआ था, परन्तु पीछे थोड़े ही समयमें आपने सम्पूर्ण कार्योंमें अपूर्व दक्षता प्राप्त कर ली थी ।

परिणाम यह हुआ कि आप थोड़े ही समयमें अच्छे विद्वान् बन गये । आप बड़े परोपकारी थे । केवल परोपकारकी दृष्टिसे आपने अपने जीवनमें बहुतेरे काम किये जिनका उल्लेख करनेके लिये यहां स्थान नहीं है ।

लालाजीका अपूर्व धैर्य, अतुल साहस, असीम उद्योग और अद्भुत कलाकौशल आदि गुण थोड़े समयमें ही सम्पूर्ण संसारमें विख्यात होगये । आप जिस प्रकार सत्यप्रतिज्ञ और धीरचरित थे, उसी प्रकार धर्मात्माओंमें अग्रगण्य और सज्जनोंमें माननीय समझे जाते थे । जो २ गुण लालाजीमें विद्यमान थे, वे गुण आजकलके बड़े २ धीशक्तिसम्पन्न विद्वानोंमें भी नहीं देखे जाते । आप राजनीति, धर्मनीति और समाजनीतिके पूर्ण ज्ञाता एवं देश और कालके जाननेमें प्रसिद्ध पांडित थे । पूर्व-अवस्थासे ही आपको नीति, धर्मशास्त्र, वैद्यक, ज्योतिष और साहित्यके संबन्धी ग्रंथोंको पढ़नेका विशेष अनुराग था । आपने अल्प समयमें कितने ही नाटक, उपन्यास, धर्मशास्त्र और वैद्यकके विविध ग्रंथोंकी रचना की । आपके अवतक वैद्यक ग्रंथोंमें से आयुर्वेदीय औषधिकोष, राजवल्लभनिघण्टु, शालिग्रामनिघण्टुभूषण, रसरत्नाकर, भावप्रकाश, धन्वंतरि, अर्कप्रकाश, द्रव्यगुण, बोपदेवशतक आदि ग्रन्थ छप चुके हैं । और शोष जो अपूर्ण ग्रन्थ है वे भी पूर्ण करके शीघ्र ही प्रकाशित किये जायेंगे ।

लालाजीके यद्यपि कोई पुत्र नहीं था परन्तु वे अपने दौहित्र भाई हरिशंकरको पुत्रसे भी अधिक प्रिय समझते थे, अतएव इनको वे सदैव अपने निकट रखते थे । हरिशंकरजीने भी उनके समीप रह कर उनके अनेक गुणोंका अनुकरण किया । संवत् १९५४ में उन्होंने इस नगरमें एक आयुर्वेदोद्धारक नामक औषधालय स्थापन किया और उसका सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार मुझे और भाई हरिशंकरको प्रदान किया । आजतक हम दोनों उस औषधालयको उसी क्रमसे चला रहे हैं । जिस प्रकार प्रातःकालके छः बजेसे दश बजेतक और सन्ध्याके चार बजे से छः बजेतक लालाजी इस औषधालयमें नित्य उपस्थित होकर समस्त अभ्यागत रोगियोंका विना मूल्य औषधि और

व्यवस्थादि प्रदान किया करते थे, उसी प्रकार हम दोनों प्रातः छः बजेसे दश बजेतक और सन्ध्याको चार बजेसे छः बजेतक औषधालयमें उपस्थित होकर समस्त अभ्यागत रोगियोंको विना मूल्य औषधि और व्यवस्थादि प्रदान करते हैं ।

जब यह वंगसेन मुझे लालाजीने अनुवाद करनेके लिये दिया था, तब इस ग्रन्थको देखकर जितनी मुझे प्रसन्नता हुई थी उतना ही दुःख भी हुआ। कारण कि—यह मूलग्रन्थ इतना ही अशुद्ध था कि इसमें कहीं २ श्लोकका आशय भी अच्छे प्रकारसे समझमें नहीं आता था । यद्यपि मैंने इसको यथामति शुद्ध किया है तथापि इसमें अशुद्धियां अवश्य रह गई होंगी अतः सहृदय पाठक मुझे अल्पज्ञ समझकर क्षमा करेंगे औ पत्र-द्वारा सूचित करनेकी उदारता दिखायेंगे ।

इसके अनुवाद करने तथा वंगसेनकी जीवनी आदिके खोज करनेमें श्रीयुत-वैद्यराज पण्डित दुर्गादत्तजी-प्रान्त, मुरादाबाद । श्रीयुत, वैद्यराज-भोलानाथजी शर्मा, लाहौर । श्रीयुत वैद्य-रामेश्वरानन्दाजी, बम्बई । श्रीमान् पंडित मुकुन्दशास्त्री ओझा-प्रपन्नाहाटी, दर्भंगा आदि महानुभावोंसे विशेष सहायता मिली थी, अतः उक्त समस्त महानुभावोंका मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ ।


मैंने जिनेंद्रदेवकी कृपासे और सम्पूर्ण वृद्धवैद्योंके अनुग्रहसे लालागालिग्रामजीकी आज्ञानुसार इस ग्रन्थका अनुवाद समाप्त किया है ।

भवदीय—अनुगृहीत,
वैद्य—शंकरलाल हरिशंकर,
“आयुर्वेदोद्धारक-औषधालय,”—मुरादाबाद.



श्रीः ।

भाषाटीकासह वङ्गसेनस्थविषयानुक्रमणिका ।



विषय	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
ग्रन्थारम्भ । १		औषधप्राशनविधि ... २४		पित्तकफाधिक सान्निपात-	
मगलाचरण .. १		वातज्वरचिकित्सा ... २४		ज्वरके लक्षण ... ३७	
सञ्जनप्रार्थना ... १		पित्तज्वरचिकित्सा । २५		कफवाताधिकशीघ्रकारीसन्नि-	
दुर्जनप्रार्थना ... १		पित्तज्वरके लक्षण .. २५		पातके लक्षण ... १	
निदानपंचक । २		चिकित्सा . १		वातोल्बण विस्फोटक सन्नि-	
ऋतुप्रकरण ... ८		कफज्वरचिकित्सा । २८		पातके लक्षण ... १	
जलप्रकरण ... १		कफज्वरलक्षण ... २८		पित्तोल्बण आशुकारी सन्नि-	
प्रकृतिलक्षण ... ९		चतुर्भद्रावलेहिका ... २९		पातके लक्षण ... १	
देशप्रकृतिलक्षण ... ११		वातपित्तज्वरचिकित्सा । ३०		कफोल्बण कंपन सन्निपातके	
चिकित्सापादचतुष्टय ... १		वातपित्तज्वरके लक्षण ३०		लक्षण ... ३८	
वैद्यलक्षण ... १		चिकित्सा १		हीनवात मध्यपित्त और अधि-	
रोगीलक्षण ... १२		मधुनादि काथ १		ककफ वैदारिक सन्नि	
औषधिलक्षण ... १		पित्तश्लेष्मज्वरचि-		पातके लक्षण ... १	
परिचारिकलक्षण .. १		कित्सा । ३१		मध्यवात, हीनपित्त, अधिककफ-	
मात ... १		पित्त कफज्वरके लक्षण ३१		कर्कोटक सन्निपातके लक्षण १	
त्याज्य रोगी ... १४		चिकित्सा ३२		अधिकवात, मध्यपित्त और	
आयुर्वेदलक्षण ... १५		अमृताष्टक ३३		हीनकफसंमोहकसन्निपात	
रोगगणना ... १		कण्टकार्यादि .. १		के लक्षण ... ३९	
ज्वराधिकार । १५		पंचतित्तकाथ . . १		हीनवात वृद्धपित्त और मध्य	
उत्तम लंघन होनेके लक्षण.. १९		भाङ्ग्यादिगण ... १		कफोल्बण सन्निपातके	
अत्यन्त लंघन होनेके दोष... १		वातकफज्वरचिकित्सा । ३४		लक्षण अधिकवात हीनपित्त	
ज्वरमें जलपानविधि ... १		वातकफज्वरके लक्षण ... ३४		और मध्य कफजन्य सन्नि-	
ज्वरमें पेया देनेकी विधि ... १		चिकित्सा ... १		पातके लक्षण ... १	
आमज्वरके लक्षण . २१		आरोग्यपंचक .. ३५		मध्यवात अधिक पित्त और	
आमज्वरमें औषधि देनेसे हानि, १		चातुर्भद्रक . . १		हीनकफोल्बणसन्निपातके	
पच्यमान ज्वरके लक्षण .. २२		दशमूल १		लक्षण ... १	
निरामज्वरके लक्षण . . १		वालुकास्वेद ... ३६		त्रिदोषोल्बण कूटपाकल सन्नि-	
ज्वरमें औषधि देनेका समय . १		सन्निपातचिकित्सा । ३६		पात ज्वरके लक्षण... ४०	
ज्वर पचनेकी अवधि . १		सन्निपातनिदान ... ३६		सन्निपात चिकित्सा . ४१	
वातज्वरके लक्षण ... १		सन्निपातके लक्षण . १		उत्तम हीन और अधिक लंघन	
वातज्वरपर साधारण पाचन २३		वातपित्ताधिक बधुसन्निपात-		होनेके लक्षण ... ४२	
औषधिप्राशनमन्त्र . . १		ज्वरके लक्षण ... ३७		तन्द्राके लक्षण ... ४८	
				अभिन्यास ज्वरके लक्षण ४९	
				चिकित्सा . ५०	

व्यवस्थादि प्रदान किया करते थे, उसी प्रकार हम दोनों प्रातः छः बजेसे दश बजेतक और सन्ध्याकां चार बजे छः बजेतक औषधालयमे उपस्थित होकर समस्त अभ्यागत रोगियोंको विना मूल्य औषधि और व्यवस्थादि प्रदान करते है ।

जब यह वंगसेन मुझे लालाजीने अनुवाद करनेके लिये दिया था, तब इस ग्रन्थको देखकर जितनी मुझे प्रसन्नता हुई थी उतना ही दुःख भी हुआ। कारण कि—यह मूलग्रन्थ इतना ही अशुद्ध था कि इसमें कहीं २ श्लोकका आशय भी अच्छे प्रकारसे समझमे नहीं आता था । यद्यपि मैने इसको यथामति शुद्ध किया है तथापि इसमें अशुद्धियां अवश्य रह गई होंगी अतः सहृदय पाठक मुझे अल्पज्ञ समझकर क्षमा करेंगे और पत्र-द्वारा सूचित करनेकी उदारता दिखायेंगे ।

इसके अनुवाद करने तथा वंगसेनकी जीवनी आदिके खोज करनेमें श्रीयुत-वैद्यराज पण्डित दुर्गाद-त्तर्जा-प्रान्त, मुरादाबाद । श्रीयुत, वैद्यराज-भोलानाथजी शर्मा, लाहौर । श्रीयुत वैद्य-रोमेश्वरानन्दजां, बम्बई । श्रीमान् पण्डित मुकुन्दशास्त्री ओझा-प्रपन्नाहाटी, दर्भंगा आदि महानुभावोसे विशेष सहयता मिली थी, अतः उक्त समस्त महानुभावोका मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ ।


मैने जिनेन्द्रदेवकी कृपासे और सम्पूर्ण वृद्धवैद्योके अनुग्रहसे लालाशालिग्रामजीकी आज्ञानुसार इस ग्रन्थका अनुवाद समाप्त किया है ।

भवदीय—अनुगृहीत,
वैद्य—शंकरलाल हरिशंकर,
“आयुर्वेदोद्धारक-औषधालय,”—मुरादाबाद.



श्रीः ।

भाषाटीकासह वङ्गसेनस्थविषयानुक्रमणिका ।



विषय.	पृष्ठ.	विषय	पृष्ठ.	विषय	पृष्ठ.
ग्रन्थारम्भ ।	१	औषधप्राशनविधि ..	२४	पित्तकफाधिक सान्निपात- ज्वरके लक्षण ...	३७
मगलाचरण ..	१	वातज्वरचिकित्सा ..	२५	कफवाताधिकशीघ्रकारीसन्नि- पातके लक्षण ...	३७
सज्जनप्रार्थना ...	१	पित्तज्वरचिकित्सा ।	२५	वातोल्बण विस्फोटक सान्नि- पातके लक्षण ...	३७
दुर्जनप्रार्थना ...	१	पित्तज्वरके लक्षण ..	२५	पित्तोल्बण आशुकारी सन्नि- पातके लक्षण ...	३७
निदानपंचक ।	२	चिकित्सा ..	२५	कफोल्बण कंपन सन्निपातके लक्षण ...	३७
ऋतुप्रकरण ...	८	कफज्वरचिकित्सा ।	२८	हीनवात मध्यपित्त और अधि- ककफ वैदारिक सन्नि- पातके लक्षण ...	३७
जलप्रकरण ...	११	कफज्वरलक्षण ..	२८	मध्यवात, हीनपित्त, अधिककफ- कफोटक सन्निपातके लक्षण ..	३७
प्रकृतिलक्षण ...	११	चतुर्भद्रावलेहिका ...	२९	अधिकवात, मध्यपित्त और हीनकफसंमोहकसन्निपात के लक्षण ...	३७
देशप्रकृतिलक्षण ...	११	वातपित्तज्वरचिकित्सा ।	३०	हीनवात वृद्धपित्त और मध्य कफोल्बण सन्निपातके लक्षण अधिकवात हीनपित्त और मध्यकफजन्य सन्नि- पातके लक्षण ...	३७
चिकित्सापादचतुष्टय ...	११	वातपित्तज्वरके लक्षण	३०	मध्यवात अधिक पित्त और हीनकफोल्बणसन्निपातके लक्षण ...	३७
वैद्यलक्षण ...	११	चिकित्सा ..	३०	त्रिदोषोल्बण कूटपाकल सन्नि- पात ज्वरके लक्षण...	४०
रोगीलक्षण ...	१२	मधुक्वादि काथ ..	३१	सन्निपात चिकित्सा ..	४१
औषधिलक्षण ...	११	पित्तश्लेष्मज्वरचि- कित्सा ।	३१	उत्तम हीने और अधिक लंघन होनेके लक्षण	४२
परिचारिकलक्षण ...	११	पित्त कफज्वरके लक्षण	३१	तन्द्राके लक्षण ...	४८
मात ...	११	चिकित्सा	३२	अभिन्यास ज्वरके लक्षण	४९
त्याज्य रोगी ..	१४	अमृताष्टक	३३	चिकित्सा ...	५०
आयुर्वेदलक्षण ...	१५	कण्टकाय्यादि ..	३३		
रोगगणना ...	१५	पंचतित्तकाथ ..	३३		
ज्वराधिकार ।	१५	भाङ्गर्यादिगण ...	३३		
उत्तम लंघन होनेके लक्षण ..	१५	वातकफज्वरचिकित्सा ।	३४		
अत्यन्त लंघन होनेके दोष ..	१५	वातकफज्वरके लक्षण ..	३४		
ज्वरमे जलपानविधि ..	१५	चिकित्सा ...	३४		
ज्वरमे पेया देनेकी विधि ..	१५	आरोग्यपंचक ...	३५		
आमज्वरके लक्षण ..	२१	चातुर्भद्रक ...	३५		
आमज्वरमें औषधि देनेसे हानि,, पच्यमान ज्वरके लक्षण ...	२२	दशमूल ..	३५		
निरामज्वरके लक्षण ..	२२	वालुकास्वेद ...	३६		
ज्वरमे औषधि देनेका समय ..	२२	सन्निपातचिकित्सा ।	३६		
ज्वर पचनेकी अवधि ..	२२	सन्निपातनिदान ..	३६		
वातज्वरके लक्षण ...	२२	सन्निपातके लक्षण ..	३६		
वातज्वरपर साधारण पाचन	२३	वातपित्ताधिक बभ्रुसन्निपात- ज्वरके लक्षण ...	३७		
औषधिप्राशनमन्त्र ..	२३				

विषय	पृष्ठ	विषय.	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
आगन्तुक ज्वर ...	५२	बलाघ तैल ...	७५	त्रिदोषातिसार-	
विषमज्वर ।	५४	पटोलादि स्नेह ..	"	चिकित्सा ।	९६
वर्धमान पिंपली ..	५७	पटोलाधनुवासन ...	"	बृहच्छालिपर्णादि ...	९६
साहेश्वर धूप .	५८	चन्दनाधनुवासन ...	७६	पञ्चमूलादि ...	९७
चन्दनादि घृत ..	५९	त्रिधास्नेहपाकलक्षण ...	"	चार धूप ...	९८
कल्याण घृत .	"	तैलपाकविधि .	७७	कुटज पुटपाक ...	"
महाकल्याण घृत ..	६०	आरग्वधनिरूह वस्ति .	"	ज्योनाक पुटपाक ..	९९
पट्टपल घृत ...	"	निरूहमात्राकल्पनाविधि	"	न्यग्रोधादि पुटपाक ..	"
अमृत पट्टपलघृत ..	"	धनिष्ठादिनक्षत्रोत्पन्न ज्वराविधि ..	"	शुण्ठी पुटपाक ..	"
पट्टकट्टर तैल ..	"	धनिष्ठादि स्वस्त्ययन .	७९	पुटपाक लक्षण ...	"
कल्कके कृष्णादि गण	६१	सर्वोपधि वर्ग	८०	कुटजावलेह ...	"
लाक्षादि तैल ...	"	पथ्यापथ्य .	८१	द्वितीय कुटजावलेह ...	१००
दाह शीतादि निदान..	"	अतिसाराधिकार ।	८३	तृतीय कुटजावलेह ..	"
पद्मक तैल ..	६४	अतिसार निदान .	८३	कुटजाष्टकावलेह .	"
रसादि धातुगत ज्वर लक्षण	"	खण्ड धूप... .	"	अंकोट वटक ..	१०१
सप्तधातुगत ज्वरचिकित्सा	६५	पडंग धूप ..	८४	वत्सकाद्यगुटिका ..	"
जीर्णज्वरके लक्षण ...	६६	आमपाचन विधि	"	अंकोटगुटिका ...	"
द्राक्षादि काथ ...	६७	द्वितीय आमपाचन विधि	८५	अपराजितावलेह ..	१०२
शिरोविरेचन ...	६८	धान्यपञ्चक .	८६	पडङ्ग घृत ...	"
क्षीरपाकविधि ...	६९	चतुःसमा गुटी ...	"	कुटजाद्य घृत ...	"
कौक्कुट घृत ...	७०	काञ्जिक हरीतकी .	८७	सप्ताङ्ग घृत ...	"
चासादि घृत ..	"	कटिङ्गाद्य चूर्ण .	"	महात्रिल्व तैल ...	"
पिप्पल्यादि तैल ..	७१	चाङ्गेरी घृत ..	"	वातपित्तातिसारके लक्षण	१०३
क्षीरवृक्षाद्य तैल ...	"	समङ्गादि चूर्ण	८८	व तापित्तातिसारकी चिकित्सा ..	"
जीर्णज्वर ।	७२	पित्तातिसारकी		कफपित्तातिसारके लक्षण	"
गुडूच्यदि घृत ...	७२	चिकित्सा ।	९०	कफपित्तातिसारकी चिकित्सा	१०४
क्षीर पट्टपल घृत ...	"	धान्यक घृत ...	९१	वातकफादिके लक्षण ..	"
दशमूली क्षीरपट्टपञ्चघृत	"	पित्तातिसारमे काथ ...	"	चिकित्सा ...	१०५
बलाघ घृत ..	"	रक्तातिसारकी		छर्द्यतीसारकी चिकित्सा ...	"
बृहद्वासाद्य घृत . .	७३	चिकित्सा ।	९१	शोथातिसारचिकित्सा ...	१०६
मंजिष्ठा घृत ...	"	ह्रीवेरादि ...	९१	शोक और भयातिसारकी	
कुलिस्थाद्य घृत ...	"	गिरामेल्लिकचि घृत ...	९२	चिकित्सा ...	"
पट्टचरण तैल ...	७४	पिच्छवस्ति .	९४	कल्याणावलेह ...	"
पट्टक तैल ...	"	चाङ्गेरी घृत ...	"	आमातिसारकी चिकित्सा	१०७
अंगारक तैल ...	"	कफातिसार ।	९५	आमपाचन विधि ...	"
लाक्षादि तैल ...	"	नागरादि वटक ...	९६	प्रवाहिकाचिकित्सा ...	"
महालाक्षादि तैल ...	"			त्र्यूपणाद्य घृत ...	१०८
स्वर्जिकादि तैल ...	७५			पिच्छावस्ति ...	"

विषय.	पृष्ठ	विषय.	पृष्ठ	विषय.	पृष्ठ
पुरांपक्षय	... १०९	हरिद्रादि क्षार	१२३	द्वन्द्वज ववासीरके कारण	१३६
असाध्य लक्षण	महाक्षार	...	त्रिदोषज ववासीरके कारण	१३७
विगतार्तासार लक्षण	... ११०	वार्तायुगुटिका	...	ववासीरके पूर्व लक्षण	..
ज्वरातिसार-		मध्वारिष्ट	...	वातज ववासीरके लक्षण	..
चिकित्सा ।		मधुक पुष्पासव	१२४	वातज ववासीरकी चिकित्सा	..
नागगादि	... १११	दशमूलासव	..	लवणादि क्षार	..
होत्रेरादि	पिंडासव	१२५	पित्तज ववासीरके लक्षण	१३८
गुह्यादि	...	वृहती चित्रकक्षार घृत	..	पित्तज ववासीरकी चिकित्सा	..
व्यांपादि चूर्ण	.. ११३	रेणुमन्त्रहर्णापरघृत	..	कफज ववासीरके लक्षण	..
कट्वंगादि वटक	...	त्रिदोषज ग्रहणी	..	कफज ववासीरकी चिकित्सा	..
ग्रहणीरोग ।		जतावरी घृत	...	त्रिदोषज और सहज ववासी-	
संग्रहणी पुररूप	... ११४	आरुणकर घृत	..	रके लक्षण	..
संग्रहणी निदान और रूप	संग्रहणीके लक्षण	१२६	सहज ववासीरकी चिकित्सा	..
पिप्पल्यादि चूर्ण	.. ११६	संग्रहणीकी चिकित्सा	..	सर्वप्रकारकी ववासी की	
हिम्वष्टक	...	मसूर घृत	...	चिकित्सा	१३९
चित्रादि गुटिका	...	गोतकके गुण ।		कृष्ण सर्पादि धूप	..
द्विपंचमूलाद्य घृत	.. ११७	चांगेरी घृत	..	नृकेगादि धूप...	१४०
पञ्चमूलाद्य घृत	...	वृहत्चांगेरी घृत	..	निशादि लेप	...
महदग्नि घृत	... ११८	अष्टघटक घृत	१३०	सिद्धयोग	...
शुण्ठी घृत	...	धिल्वादि घृत..	..	त्र्यूपणाद्य चूर्ण	..
वृहत्चांगेरी घृत	... ११९	वृहन्मसूरादि घृत	..	पृथिकादि योग	..
पित्तज ग्रहणी	...	कापित्थाष्टक	...	विडंगसारादि काथ	१४१
रसाञ्जनादि चूर्ण	मधुकपुष्पासव	..	गुडाद्य चूर्ण	..
पाठादि काथ चूर्ण	...	कल्याण गुड	...	हरिद्रादि प्रलेप	...
नागराद्य चूर्ण	.. १२०	महाकल्याणगुड	..	गुदस्वेद	... १४२
तेडुलोदक विधि	द्वितीय कल्याणगुड	१३२	घृतभर्जित हरीतकी	..
भूनिम्ब घ चूर्ण	...	तृतीय कल्याणगुड	१३३	अपामार्गादि योग	..
पाठाद्य चूर्ण	चतुर्थ कल्याणगुड	..	तिलादियोग	...
चन्दनाद्य घृत	...	कृष्माण्ड कल्याण गुड	१३४	सूरण पुटपाक	..
किराताद्य घृत	... १२१	बहुशा लिगुड...	..	कृष्ण तिलादि प्रयोग...	..
मसूरादि घृत	...	सार वल्प	१३५	वार्ताक पुटपाक	...
कलिंग घृत	...	अपराजितावेलह	..	गुड हरीतकी...	..
कफग्रहणी रोगकी चिकित्सा	अर्शरोग ।		तक्र योग	...
यवागूविधि	... १२२	अर्शरोगकी संख्यापूर्वक	१३६	पाठादि योग	... १४३
पिप्पल्यादि चूर्ण	...	संप्राप्ति	...	शोणितस्राव विधि	..
भल्लातक क्षार	...	वातज ववासीरके कारण	..	उदकपट्टपलघृत	...
दुरालभादि क्षार	... १२३	पित्तज ववासीरके कारण	..	पलाशक्षारघृत	..
भूनिम्बादि क्षार	...	कफज ववासीरके कारण	..	चव्याद्यघृत	...

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ.
हीवरादि घृत	१४४	लोहाष्टक	... १५७	आमाजीर्ण "
अग्निघृत	"	चव्याद्य लोह	... १५८	विदग्धाजीर्ण लक्षण	... "
बृहदग्नि घृत	"	शंकर लोह	... "	विष्टब्धजीर्ण लक्षण	... "
कासीसादि तैल	१४५	लोह परिपाकके लक्षण	... १६१	रसशेषाजीर्ण लक्षण	... १७७
बृहत्कीसीसादि तैल	... "	रक्तार्शनिदान । १६१		अजीर्णोपद्रव	... "
दन्त्यादि तैल	१४६	वाताद्यनुबन्ध	... १६२	अजीर्णकी चिकित्सा	... "
सैन्धवादि चूर्ण	... "	सामान्य चिकित्सा	... "	हिमवष्टक चूर्ण	... १७८
कटुत्रयादि चूर्ण	.. "	चन्दनादि काथ	... "	अग्निमुख चूर्ण	... "
कल्याणलवण	.. "	नवनीतादि योग	.. "	द्वितीय अग्निमुख चूर्ण	... १७९
समशर्कर चूर्ण	.. "	कमलकेशरादि	... "	भास्करलवण	... १७९
व्योपादि चूर्ण	.. "	पेशा	... "	वडवानल चूर्ण	... १८०
फलवर्ति तैल	१४७	कुटजादि घृत	.. १६३	हिगुद्गादशक चूर्ण	... "
विजयचूर्ण	... "	अवाक्पुष्पी घृत	... "	बृहदग्निमुख चूर्ण	... "
दन्त्यरिष्ट	... "	महाचांगेरी घृत	.. १६४	वडवामुख चूर्ण	... १८१
चतुस्सम मोदक	... १४८	कुटजरस क्रिया	.. १६५	ज्वालामुख चूर्ण	... "
स्वरपसूरण मोदक	.. "	कुटजलेह	.. "	वृषद्वादशक चूर्ण	... "
सुरणपिण्डी	.. "	चित्रकादि भल्लातकावलेह.	१६६	समशर्कर चूर्ण	... "
बृहत्सूरणमोदक	... "	सूत्र बन्धन	.. "	मरिचादि चूर्ण	.. "
अगस्त्यमोदक	... १४९	क्षारसूत्र	.. "	नागरादि चूर्ण	.. "
प्राणदा गुटिका	.. "	कालपुष्पादिक्षार	१६७	मस्तुपट्टपलघृत	.. १८२
कांकायण मोदक	... १५०	अभयारिष्ट	.. १६८	महापट्टपल घृत	... "
भद्रातक गुड	... "	यन्त्रप्रकार	.. "	मरिचादि घृत	.. "
भद्रातकावलेह	... १५१	गुदाविवरण	... "	धान्यजीरक घृत	... १८३
पटोलाद्यवलेह	.. "	कपित्थाद्य घृत	... १७१	धान्यघृत	.. "
भल्लतकविधान	... १५२	प्रतिसारणमात्रा	... "	जीरकघृत	.. "
योगराजगुग्गुलु	... "	चर्मकीललक्षण	... १७२	धान्यकघृत	... "
श्रीवाद्दालगुड	... १५३	साध्यासाध्यता	.. "	अग्निघृत	... "
गुडपाक	... १५४	सुखसाध्यलक्षण	.. "	अल्पचुक	.. १८४
लोहवर्णन । १५४		कष्टसाध्यलक्षण	.. "	चुकसन्धानविधान	.. "
मृदु लक्षण	... १५४	असाध्यलक्षण	... "	बृहच्चुकसन्धानविधान	.. "
कुण्ड लक्षण	.. "	याप्य लक्षण	... १७३	चित्रकगुड	... "
कण्डार लक्षण	... "	अजीर्णनिदान । १७३		क्षारगुड	... १८६
मुंजजातिमृदुलोदगुण	... "	चिकित्सा	... १७४	द्वितीय क्षारगुड	... "
मीक्षणभेद	.. १५५	अष्टमंड गुण	... "	विषूचिकादिनिदान । १८६	
कान्तलोहभेद	... "	अग्निमांशकी चिकित्सा विधि	१७५	विषूचिकाके लक्षण	... १८६
रस योगर हुन्ताल वाजरादि	... "	अजीर्णरोग	.. "	अलसकके लक्षण	.. "
त्रोष्णे भेद	... "	अजीर्णनिदान	... १७६	विलम्बिकाके लक्षण	... १८७
गणलोह गुण	... "	सामान्याजीर्णलक्षण	... "	अजीर्णमें आमके कार्य	.. "
अग्निगुणलोह	... १५७				

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ	विषय.	पृष्ठ.
असाध्य लक्षण ...	१८७	कटुकाद्य घृत ...	१९८	पैत्तिक रक्तपित्तके लक्षण	२०८
जीर्णाहारके लक्षण ...	"	व्योषादि घृत ...	१९९	द्वन्द्वज और सन्निपातज रक्त-	
विपूचिकाके उपद्रव ...	१८८	देवदान्यादिघृत ...	"	पित्तके लक्षण ...	"
चिकित्सा ...	"	रजनित्रिफला घृत ...	"	रक्तपित्तके उपद्रव ...	२०९
अर्करसादि तैल ...	"	दन्तीघृत ...	"	असाध्य लक्षण ...	"
अंजन ...	१८९	योगराज ...	"	चिकित्सा ...	"
द्वितीय अंजन ...	१९०	शिवगुटिका ...	२००	पत्रादि-चूर्ण ...	२११
भस्मकनिदान-चि० । १९०		त्र्युषणादिवटी ...	"	श्यामाघृत ...	२१६
कृमिरोगनिदान । १९१		कामलारोगनिदान । २०१		दूर्वाद्य तैल ...	"
पेटमे कृमि होजानेके लक्षण १९१		कुम्भकामला ...	२०१	तृणपञ्चमूली क्षीर ...	"
चिकित्सा ...	१९२	चिकित्सा ...	"	चन्दनाद्य चूर्ण ...	"
त्रिफलादि घृत ...	१९३	अष्टादशांग गुटिका ...	२०२	दूर्वाद्य घृत ...	२१७
विडंगादि घृत ...	"	धात्रीलोह ...	"	महादूर्वाद्य घृते ...	"
पिप्पलादि चूर्ण ...	१९४	हरिद्रादि घृत ...	२०३	शुंगाद्य घृत ...	२१८
सावित्रवटक ...	"	गुडची घृत ...	"	शतावरी घृत ...	"
मशकहर धूप ...	१९५	पाण्डुरोगका भेद		बृहच्छतावरी घृत ...	"
भुजंगादिनाशक धूप ...	"	हलामिक । २०३		वासाद्य घृत ...	"
विडंग तैल ...	"	पानकीके लक्षण ...	२०४	वासाघृत ...	२१९
अपथ्य ...	"	चिकित्सा ...	"	बृहद्वासाघृत ...	"
पाण्डुरोग । १९५		सिताद्यवलेह ...	"	कामदेवघृत ...	"
पाण्डुरोगके पूर्वलक्षण... १९५		अमृतादि घृत ...	"	अनंतादिघृत ...	२२०
पाण्डुरोगके उत्पन्न होनेके कारण ...	"	नवायसचूर्ण ...	"	दूर्वादि तैल ...	"
पाण्डु रोगका पूर्वरूप... १९६		मण्डूरवटक ...	२०५	मधुकादि गुटिका ...	"
वातज पाण्डुरोगके लक्षण ...	"	बृहन्मण्डूरवटक ...	"	खण्डकूष्माण्ड ...	२२१
पित्तज पाण्डुरोगके लक्षण ...	"	निम्बादिगुटिका ...	"	द्वितीय खण्डकूष्माण्ड ...	"
कफज पाण्डुरोगके लक्षण ...	"	मण्डूर गुटिका ...	२०६	वासाखण्ड ...	२२२
असाध्य पाण्डुरोगके लक्षण ...	"	विभीतक्यादि गुटिका ...	"	सूरणनाक ...	"
मृत्तिकाभक्षणजन्य पाण्डुरोग ...	"	मण्डूरवज्रवटक ...	"	द्वितीय वासाखण्ड ...	"
विशेष लक्षण ... १९७		विडंगाद्यवलेह ...	"	खण्डखाद्य लोह ...	२२३
असाध्य लक्षण ...	"	आमलक्यवलेह ...	२०७	अमृताख्य लोहरसायन ...	"
चिकित्सा ...	"	खदिरलेह ...	"	खण्डादि लोह ...	२२४
दशमूलादि काथ ...	"	कल्याणगुड ...	"	राजयक्ष्मनिदान । २२६	
लौहादि मोदक ... १९८		पुनर्नवादि काथ ...	"	पूर्वलक्षण ...	२२६
मूर्वादि घृत ...	"	पथ्य ...	"	राजयक्ष्माके त्रिरूपलक्षण ...	"
		रक्तपित्तनिदान । २०८		षट् रूपलक्षण ...	"
		पूर्वलक्षण ...	२०८	दोषभेदेस एकादशरूपलक्षण	२२७
		उल्लेष्मिक रक्तपित्तके लक्षण ...	"	द्वितीय षट् रूपलक्षण ...	"
		वातिक रक्तपित्तके लक्षण ...	"	साध्यासाध्यता ...	"

विषय.	पृ.	विषय.	पृ.	विषय.	पृ.
यवायशोकादिजन्य क्षयरोगके लक्षण ... २२७		उच्चटाद्य मोदक ... २४०		उरःक्षतजकासरोग-निदान । २५२	
व्यवायशोपिके लक्षण ... २२८		क्षतक्षयाधिकार । २४०		चिकित्सा ... २५२	
शोकशोपिके लक्षण ... २२८		पूर्वरूप ... २४१		इक्ष्वाद्यवलेह ... २५३	
जराशोपिके लक्षण ... २२८		असाध्य लक्षण ... २४२		क्षीरपाक ... २५३	
अध्वशोपिके लक्षण ... २२८		चिकित्सा ... २४२		वासकूष्माण्ड ... २५३	
व्यायामशोपिके लक्षण ... २२८		एलादि गुटिका ... २४३		क्षयजकासनिदान । २५३	
ब्रणशोपिके लक्षण ... २२८		यष्ट्याह घृत ... २४३		चिकित्सा ... २५४	
चिकित्सा ... २२८		बलादि घृत ... २४३		पिप्पल्यादि घृत ... २५४	
पडङ्गयूप ... २२९		श्वदंष्ट्रादि घृत ... २४३		कुलीरादि घृत ... २५४	
जीवन्त्याद्यनुवर्तन ... २३१		द्राक्षादि घृत ... २४४		द्विपंचमूलादि घृत ... २५५	
सितोपलादिलेह ... २३२		अमृतप्राश ... २४४		अश्वगन्धादि घृत ... २५६	
तालीसादिचूर्णगुटिका ... २३२		सार्पिगुड ... २४५		पिप्पल्याद्यवलेह ... २५६	
महातालीसादि चूर्ण ... २३३		सर्पिमोदक ... २४५		क्षयकास ... २५६	
तालीसादि चूर्ण ... २३३		कासरोगनिदान । २४६		कासश्वास ... २५७	
कर्पूरादि चूर्ण ... २३३		पूर्वरूप ... २४६		धूमपान ... २५७	
जातीफलादि चूर्ण ... २३४		वातज कासके लक्षण ... २४६		कण्टकार्यादि काथ ... २५८	
शृंगादि चूर्ण ... २३४		चिकित्सा ... २४७		कुन्ठ्यादि लेह ... २५८	
यवान्यादि चूर्ण ... २३४		दशमूलादि घृत ... २४७		हरीतक्यादि मोदक ... २५९	
सूक्ष्मैलिक चूर्ण ... २३४		भाङ्गर्यादि घृत ... २४७		समशर्कराचूर्ण ... २५९	
अमृतादि घृत ... २३५		राम्नादि घृत ... २४८		बृहत्समशर्करा चूर्ण ... २५९	
वासादि घृत ... २३५		चित्रकाद्यवलेह ... २४८		मारिचादि चूर्ण ... २५९	
बलादि घृत ... २३५		पित्तजकासनिदान-पूर्वकचिकित्सा । २४८		विभीतकावलेह ... २५९	
खर्जुरादि चूर्ण ... २३६		पट्टप्रस्थ घृत ... २४९		जीवन्त्यादि चूर्ण ... २५९	
एलादि मन्थ ... २३६		द्वितीय क्षीरघृत ... २४९		पद्मकादि चूर्ण ... २५९	
दशमूलीशृत घृत ... २३६		कफकासनिदान-चिकित्सा । २४९		सिंहामृतघृत ... २६०	
पडङ्ग घृत ... २३६		नवांगयूप ... २४९		कण्टकारि घृत ... २६०	
जीवन्त्याद्य घृत ... २३७		शट्यादि घृत ... २५०		द्वितीयकण्टकारि घृत ... २६०	
पिप्पलीघृत ... २३७		बृहत्कण्टकार्यादि घृत ... २५०		तृतीय कण्टकारि घृत ... २६०	
पाराशरघृत ... २३७		व्योषाद्य घृत ... २५०		बृहद्वासकादि घृत ... २६१	
श्वदंष्ट्रादि घृत ... २३७		निर्गुण्डी घृत ... २५१		कण्टकारी लेह ... २६१	
ह्यागलाद्य घृत ... २३७		कट्फलादि काथ ... २५१		व्याघ्री हरीतकी ... २६२	
बलागर्भ घृत ... २३७		लवंगादिसमशर्कराचूर्ण ... २५१		बृहद्गस्त्य हरीतकी ... २६२	
चन्दनादि तैल ... २३८		दशमूलाद्य घृत ... २५१		वसिष्ठ हरीतकी ... २६३	
शतपाक तैल ... २३८		शृंगराज तैल ... २५१		कुलित्थ गुड ... २६३	
वासावलेह ... २३९				द्वितीयकुलित्थ गुड ... २६३	
सार्पिगुड ... २३९					
च्यवनप्राशावलेह ... २३९					

विषयः	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
हिक्काधिकार ।	२६४	शुंगादि घृत ...	२७७	अन्नजाके लक्षण ...	२२१
सम्प्राप्ति ...	२६४	निदाग्धिकादि लेह ...	२७८	उपसर्गजाके लक्षण ...	"
पूर्वरूप ...	२६५	चव्यादि चूर्ण ...	"	चिकित्सा ...	२९२
अन्नजाके लक्षण ...	"	कण्टकारीघृत ...	"	वाततृषा ...	"
यमलाके लक्षण ...	"	अरोचकाधिकार ।	२७९	पित्ततृषा ...	"
क्षुद्राके लक्षण ...	"	अरुचि चिकित्सा ...	२७९	कफतृषा ...	"
गम्भीराके लक्षण ...	"	कलहंस कांजी ...	२८१	क्षयजतृषाकी चिकित्सा	२९४
महाहिक्काके लक्षण ...	"	दाडिमादि चूर्ण ...	"	मूर्च्छाधिकार ।	२९५
असाध्य लक्षण ...	"	खाण्डव चूर्ण ...	"	पूर्वरूप ...	२९५
चिकित्सा ...	२६६	महाखाण्डव चूर्ण ...	२८२	वातजमूर्च्छाके लक्षण ...	"
सुपूत्तकीटाद्य चूर्ण ...	२६७	यवानीखाण्डव चूर्ण ...	"	पित्तजमूर्च्छाके लक्षण ...	२९६
नारीक्षीराद्य घृत ...	"	लवंगादि चूर्ण ...	"	कफजमूर्च्छाके लक्षण ...	"
दशमूलाद्य घृत ...	२६८	सूक्ष्मैलादि चूर्ण ...	२८३	सान्निपातिक मूर्च्छाके लक्षण	"
श्वासरोगाधिकार ।	२६८	व्याघ्री घृत ...	"	रक्तजमूर्च्छाके लक्षण ...	"
पूर्वरूप ...	२६८	छर्दिरोगाधिकार ।	२८३	मद्य और विषकी मूर्च्छाके ल०	"
महाश्वासके लक्षण ...	२६९	पूर्वरूप ...	२८४	कुमके लक्षण ...	२९७
ऊर्ध्वश्वासके लक्षण ...	"	वातछर्दिके लक्षण ...	"	तन्द्राके लक्षण ...	"
छिन्नश्वासके लक्षण ...	"	असाध्य लक्षण ...	"	संन्यासके लक्षण ...	"
तमकश्वासके लक्षण ...	"	चिकित्सा ...	"	चिकित्सा ...	"
प्रतमकश्वासके लक्षण ...	२७०	पित्तछर्दिके लक्षण ...	"	भ्रमनाशिनी गुटिका ...	२९८
क्षुद्रश्वासके लक्षण ...	"	चिकित्सा ...	२८५	मदात्ययाधिकार ।	२९९
श्वासादिकी चिकित्सा ...	२७१	कफछर्दिके लक्षण ...	२८६	मदात्ययका निदान ...	२९९
शृंगयादिचूर्ण ...	२७२	चिकित्सा ...	"	त्रिगुण मद्के लक्षण ...	३००
शटयादिचूर्ण ...	२७३	त्रिदोषज छर्दिके लक्षण ...	"	वातज मदात्ययके लक्षण ...	३०१
हिंसादि घृत ...	"	असाध्य लक्षण ...	"	पित्तज मदात्ययके लक्षण ...	"
सौवर्चलादि घृत ...	"	चिकित्सा ...	२८७	कफज मदात्ययके लक्षण ...	"
कुलित्थादि घृत ...	"	मनःशिलादिलेह ...	२८८	त्रिदोषजनित मदात्ययके ल०	"
तिक्तादि घृत ...	"	पद्मकादि घृत ...	२८९	परमद्के लक्षण ...	"
द्वितीय कुलित्थादि घृत ...	२७४	आगन्तुजछर्दिनिदान ...	"	पानार्जीर्णके लक्षण ...	"
सुवहादि घृत ...	"	चिकित्सा ...	"	पानविभ्रमके लक्षण ...	"
भृगुगजतैल ...	"	छर्दिचिकित्सा ...	"	असाध्य लक्षण ...	"
क्षीरपिप्पली ...	"	उपद्रव ...	२९०	उपद्रव ...	३०२
भाङ्गीगुड ...	"	तृषारोगाधिकार ।	२९०	ध्वंसक और विक्षेपके लक्षण	"
कुलित्थगुड ...	२७५	वातजतृषानिदान ...	२९०	चिकित्सा ...	"
स्वरभेदरोगाधिकार ।	२७५	पित्तजतृषाके लक्षण ...	२९१	अष्टांग लवण ...	३०३
असाध्यके लक्षण ...	२७६	क्षतजतृषाके लक्षण ...	"	चव्यादि चूर्ण ...	"
चिकित्सा ...	"	क्षयजतृषाके लक्षण ...	"	मधुत्रिफलागुडार्द्रक योग ...	"
कासमर्दादि घृत ...	"	आत्मजाके लक्षण ...	"		

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
शतावरीपुनर्नवादि घृत ...	३०४	विगतोन्मादके लक्षण ...	३१६	शिशु तैल ...	३२५
त्याज्यरोगी ...	३०५	भूतोन्मादके लक्षण ..	”	जीवनीय यमक ...	”
दाहरोगनिदा		देवग्रहग्रासितके लक्षण ...	”	वातव्याधि-	
नाधिकार ।	३०५	असुरग्रहजुष्टके लक्षण ...	”	निदान ।	३२५
चिकित्सा ...	३०५	गन्धर्वग्रहग्रासितके लक्षण ...	”	पूर्वरूप और रूप ...	३२६
आमलक्यादि खंड ...	३०६	यक्षग्रहग्रासितके लक्षण ...	”	कोष्ठाश्रित वायुके कार्य ...	”
कुशादिघृत तैल ...	”	पितृग्रहग्रासितके लक्षण ...	”	सर्वांगकुपित वायुके कार्य ...	”
रक्तज दाह ...	”	सर्पग्रहग्रासितके लक्षण ...	३१७	गुदामें स्थित वायुके कार्य ...	”
चिकित्सा ...	३०७	राक्षसग्रहग्रासितके लक्षण ...	”	आमाशय स्थित वायुके कार्य ...	३२७
तृषानिरोधज दाह ...	”	ब्रह्मराक्षसग्रासितके लक्षण ...	”	पक्वाशयस्थवायुके कार्य ...	”
चिकित्सा ...	”	पिशाचग्रासित उन्मादके लक्षण ...	”	इन्द्रियोंमें स्थित वायुके कार्य ...	”
रक्तपूर्णकोष्ठज दाह ...	”	असाध्य लक्षण ...	”	रसधातुगत वायुके लक्षण ...	”
चिकित्सा ...	”	देवादिकोका आवेशका समय ...	”	रक्तगत वायुके लक्षण ...	”
उन्मादरोगाधिकार ।	३०८	महाधूप ...	३१८	मांसमेदोगत वायुके लक्षण ...	”
उन्मादके सामान्य कारण		अपस्माररोगा-		मज्जास्थित वायुके लक्षण ...	”
और सम्प्राप्ति ...	३०८	धिकार ।	३१८	शुक्रगतवायुके लक्षण ...	”
उन्मादका पूर्वरूप ...	”	अपस्मारका निदान ...	३१९	शिरागतवायुके लक्षण ...	”
वातज उन्मादके लक्षण ...	”	अपस्मारका पूर्वरूप ...	”	स्नायुगत और सन्धिगत वायुके	
पित्तज उन्मादके लक्षण ...	३०९	वातज अपस्मारके लक्षण ...	”	लक्षण ...	३२८
कफज उन्मादके लक्षण ...	”	पित्तज अपस्मारके लक्षण ...	”	पित्तकफाश्रित प्राणवायुके कार्य ...	”
सन्निपातज उन्मादके लक्षण ...	”	कफज अपस्मारके लक्षण ...	”	पित्तकफाश्रित उदानवायुके	
शोकज उन्मादके लक्षण ...	”	त्रिदोषज अपस्मारके लक्षण ...	३२०	कार्य ...	३२८
विषज उन्मादके लक्षण ...	३१०	असाध्य लक्षण ...	”	पित्तकफाश्रित सामानवायुके	
उन्मादके असाध्य लक्षण ...	”	अपस्मारके वेगका समय ...	”	कार्य ...	”
चिकित्सा ...	”	चिकित्सा ...	”	पित्तकफाश्रित अपानवायुके	
सिद्धार्द्धकाद्यजन ...	”	जलमृतके लक्षण ...	३२१	कार्य ...	”
ड्यूपणादि वार्ति ...	३१२	पलंकषा तैल ...	३२३	पित्तकफाश्रित व्यानवायुके	
सारस्वत चूर्ण ...	”	त्रिफला तैल ...	”	लक्षण ...	”
हिंवादि घृत ...	३१३	ब्राह्मी घृत ...	”	चिकित्सा ...	”
महापैशाचिक घृत ...	”	कूष्माण्डक घृत ...	”	वेशवार ...	३२९
सारस्वत घृत ...	”	स्वल्पपंचगव्य घृत ...	”	वाजिगन्धादि गण ...	”
पानीयकल्याण घृत ...	३१४	महापंचगव्य घृत ...	३२४	रसोन पेय ...	”
महाकल्याण घृत ...	”	महाचैतस घृत ...	”	स्वल्प रसोनं पिण्ड ...	३३०
चैतस घृत ...	”	काथकी विधि ...	”	लशुन योग ...	”
द्वितीय चतस घृत ...	३१५	मधूक घृत ...	३२५	साल्वण स्वेद ...	३३१
निशादि घृत ...	”	काश्मरी घृत ...	”	महासाल्वण स्वेद ...	”
चन्दनादि तैल ...	”	वचादि घृत ...	”	तीन काथ ...	३३२
		कटभी तैल ...	”	पद्मधरण योग ...	”

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
केतक्यादि तैल ...	३३३	भल्लातकादि घृत ...	३४०	वलाशैरीय तैल ...	३४८
बलादि घृतमण्ड ...	"	मूक मिन्मिण और गद्रदका		महाबला तैल ...	"
हनुम्रहके लक्षण ...	३३४	निदान ...	"	द्वितीय महाबला तैल ...	३४९
चिकित्सा ...	"	उपरोक्त तीनों रोगोंकी चि०	"	सहचरादि तैल ...	३५०
जिह्वास्तम्भके लक्षण ...	३३५	सारस्वत घृत ...	"	महासहचरादि तैल ...	"
चिकित्सा ...	"	कल्याणकलेह ...	३४१	विष्णुप्रोक्त अंगवर तैल	"
मन्यास्तम्भके लक्षण ...	"	मूत्रावरोधके लक्षण ...	"	महाकल्याणक तैल ...	३५१
मन्यास्तम्भकी चिकित्सा	"	स्थान नाम लक्षणके अनुसार		स्वल्पनारायण तैल ...	३५२
कुब्जलक्षण ...	"	वातव्याधिनिदान ...	"	मध्यम नारायण तैल ...	"
कुब्जकी चिकित्सा ...	"	आक्षेपकवातके सामान्य ल०	"	महानारायण तैल ...	३५३
शिरोग्रहके लक्षण ...	"	आक्षेपवायुके अपतन्त्रक और		मापतैल ...	३५४
शिरोग्रहकी चिकित्सा ...	"	अपतानक इन दोनों भेदोंकी		बृहन्मापादि तैल ...	३५५
बाहुशोपका निदान ...	"	अवस्थाविशेष ...	"	महामापादि तैल ...	"
गृध्रसीके लक्षण ...	३३६	दण्डापतानकके लक्षण ...	३४२	सामिप महामाष तैल ...	३५६
विश्वाचके लक्षण ..	"	धनुस्तम्भके लक्षण ...	"	शतावरीआदिको खोदनेकामंत्र	३५७
बाहुशोपकी चिकित्सा ...	"	अन्तरायामके लक्षण ...	"	महामाष तैल ...	३५८
मापतैल ...	३३७	बाह्यायामके लक्षण ...	"	मापतैल ...	"
खञ्ज और पंगुके लक्षण	"	आक्षेपकके भेद ...	"	चतुर्विंशतिका प्रसारिणी तैल	३५९
कलाय खञ्जके लक्षण .	"	असाध्यत्व ...	"	शुक्त बनानेकी विधि ...	३६०
पादहर्षके लक्षण ...	"	चिकित्सा ...	"	पंचपल्लवके द्वारा शुद्धि	"
पाददाहके लक्षण ...	"	महास्नेह ...	३४३	नखशुद्धि ...	३६१
क्रोण्टुशीर्षके लक्षण ...	"	तिल्वक घृत ...	"	हरिद्रावचाशुद्धि ...	"
वातकण्ठकके लक्षण ..	"	मरिचादि नस्य ...	३४४	मस्तकशुद्धि ...	"
चिकित्सा ...	"	विभीतकादि चूर्ण ...	"	शैलजशुद्धि ...	"
वाताघ्नीला निदान .	३३८	पक्षाघातके लक्षण ...	"	खट्वाशीशुद्धि ...	"
प्रत्याघ्नीलाके लक्षण ..	"	पक्षाघातकी चिकित्सा ...	३४५	शिलारक्षादि शुद्धि ...	"
दोनोकी चिकित्सा ...	३३९	मापादि नस्य ...	"	महामाषतैल ...	३६२
तूनी निदान ...	"	प्रन्थिकादि तैल ...	"	शतकप्रसारणी तैल ...	३६३
प्रातितूनके लक्षण ...	"	माषतैल ...	"	त्रिशतीप्रसारणी तैल ...	"
दोनोंकी चिकित्सा ...	"	आदित्यपाक गुग्गुलु ...	३४६	कुब्जप्रसारिणी तैल ...	३६४
तन्द्राके लक्षण ..	"	एरण्डादि गुग्गुलु ...	"	सप्तशतिका महाप्रसारिणीतैल	"
तन्द्राकी चिकित्सा ...	"	त्रयोदशांग गुग्गुलु ...	"	महाप्रसारिणी तैल ...	३६५
आध्मानके लक्षण ...	"	स्यायंभुवगुग्गुलु वटी ...	३४७	गन्धहस्ती प्रसारिणी तैल	"
प्रत्याध्मानके लक्षण ...	"	पत्रलवण और स्नेहलवण	"	अष्टादश शतक प्रसारिणीतैल	३६७
आध्मानकी चिकित्सा ...	"	तिल्वकाख्य घृत ...	"	अजितप्रसारिणी तैल ...	३६८
प्रत्याध्मानकी चिकित्सा	३४०	रास्नादि घृत ...	"	रसोक्त तैल ..	३७१
कंपवातके लक्षण ...	"	अश्वगन्धादि घृत ...	३४८	मूलकादि तैल ...	"
खल्लीके लक्षण ...	"	दशमूलादि घृत ...	"	दशमूलादि तैल ...	"
कंप और खल्लीवातकी चि०	"	छागलादि घृत ...	"	अश्वगन्धादि तैल ...	३७२

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ	विषय.	पृष्ठ.
शतावरी तैल ...	३७२	नवकार्पिक काथ ...	३८५	साध्यासाध्य विचार ...	४०४
पथ्य ...	३७३	बलाघृत ...	३८७	आमवातकी चिकित्सा	"
साध्यासाध्यता ...	"	शतावरी घृत ...	"	कटिग्रहके लक्षण ...	४०६
अर्दितरोगनिदान।	३७३	गुडूची घृत ...	"	कटिग्रहकी चिकित्सा ...	४०७
वातार्दितके लक्षण ...	३७४	अमृतादि घृत ...	"	अमृतादि चूर्ण ...	"
पित्तजनित अर्दितके लक्षण	"	द्वितीय अमृतादि घृत ...	"	लघुरास्नादि ...	"
कफजनित अर्दितके लक्षण	"	द्वितीय गुडूची घृत ...	"	महारास्नादि ...	"
मिश्रित अर्दितके लक्षण ...	"	अमृतादि घृत ...	३८८	रास्नादशमूल काथ ...	४०८
असाध्य लक्षण ...	"	महागुडूची घृत ...	"	अलम्बुपादि चूर्ण... ..	"
अर्दित रोगकी चिकित्सा	"	पिण्डतैल ...	३८९	आभादि चूर्ण ...	४०९
दशमूलादिक्षीरतैल ...	३७५	द्वितीय पिण्डतैल... ..	"	द्वितीय अलम्बुपादि चूर्ण ...	"
गृध्रसीनिदान।	३७६	गुडूचीतैल ...	"	वैश्वानर चूर्ण ...	"
वातज गृध्रसीके लक्षण ..	३७६	अमृताह्वयतैल ...	"	शुण्ठी घृत ...	"
वातकफजनित गृध्रसीके ल०	"	नागबलतैल ...	३९०	द्वितीय शुण्ठी घृत... ..	४१०
गृध्रसीकी चिकित्सा ..	"	दशपाकबला तैल ...	"	कांजिकादि घृत	"
दशमूलकी औषधि ...	"	शतपाकसहस्रपाकबला तैल	"	शृंगवेरादि घृत ...	"
पथ्यादि गुग्गुलु ...	३७८	पुनर्नवा गुग्गुलु ...	३९१	अजमोदादि वटक ...	"
लशुनादि घृत ...	३७९	अमृतादि गुग्गुलु ...	३९२	योगराजगूगल ...	४११
अश्वगन्धातैल ...	"	सूर्यप्रभावटिका ..	"	शुण्ठी खण्ड ...	"
सैन्धवादि तैल ...	"	कैशोर गुग्गुलु ..	३९४	रसोन पिण्ड ...	४१२
गोधुरादि तैल ...	"	सिंहनाद गुग्गुलु ...	"	प्रसारिणी तैल ...	"
वातरक्ताधिकार।	३८०	द्वितीय सिंहनाद गुग्गुलु... ..	३९५	द्विपंचमूलादि तैल ...	"
वातरक्तका निदान ...	३८०	चन्द्रप्रभावटिका ...	३९६	बृहत्सैन्धवादि तैल ...	"
वातरक्तकी सम्प्राप्ति .	"	शिलाजितुशोधन विधि ...	३९८	निरूह ...	४१३
वातरक्तके पूर्वलक्षण ..	"	योगसारामत ..	३९९	पथ्यापथ्य ...	"
वाताधिक वातरक्तके लक्षण	३८१	पथ्य ...	"	शूलरोगाधिकार।	४१४
रक्ताधिक वातरक्तके लक्षण	"	ऊरुस्तम्भाधिकार।	३९९	शूल निदान ...	४१४
पित्ताधिक वातरक्तके लक्षण	"	पूर्वरूप ...	४००	चिकित्सा ...	"
कफवातरक्तके लक्षण ...	"	ऊरुस्तम्भके लक्षण ...	"	बलादि चूर्ण ...	४१५
असाध्य लक्षण ...	३८२	असाध्यलक्षण ..	"	तुम्बरादि चूर्ण ...	"
वातरक्तके उपद्रव ...	"	ऊरुस्तम्भकी चिकित्सा ...	"	पित्तशूल निदान ...	४१६
साध्यासाध्यप्रकार ...	"	रास्नादिकाथ ..	४०२	पित्तशूलकी चिकित्सा ...	"
वातरक्तकी चिकित्सा ...	"	कुष्ठादि तैल ...	"	कुशादि घृत ...	४१७
अपथ्य ...	३८३	अष्टकद्वर तैल ...	४०३	कफशूलनिदान ...	४१८
पथ्य ...	"	आमवातरोगाधि०	४०३	कफशूलकी चिकित्सा ...	"
अभया गुड ...	३८४	आमवातका पूर्वरूप ...	४०३	द्वन्द्वज और त्रिदोषज शूल	"
गुग्गुलु बर्षी ...	"	आमवातके सामान्य लक्षण	"	चिकित्सा ...	४१९
		विशेष लक्षण ...	४०४	आमशूलनिदान ...	"
		अत्यन्त बडे हुए आमवातके ल०,,			

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ	विषय.	पृष्ठ
चिकित्सा	... ४१९	गुडपिप्पली घृत	... ४३०	द्विरुत्तराहिंवाद्य चूर्ण	४४२
एरण्डसप्तक काथ	... ”	पिप्पली घृत	... ”	हिंवाद्य चूर्ण	... ”
शूलके स्थान	... ४२०	लोहादि लेह	... ”	वचाद्य चूर्ण	... ४४३
कफवातज शूल	... ”	कांलादि मण्डूर	... ”	गुल्मरोगाधिकार ।	४४३
पार्श्वशूलके लक्षण	... ”	भीमवटकमण्डूर	... ”	गुल्मका सामान्य रूप	४४३
कुक्षिशूलके लक्षण	... ”	क्षीरमण्डूर	... ४३१	गुल्मकी सम्प्राप्ति	... ”
हृदयशूलके लक्षण	... ”	शतावरीमण्डूर	... ”	गुल्मका पूर्वरूप	... ”
वस्तिशूलके लक्षण	... ”	तारामण्डूर गुड	... ”	गुल्मके साधारण लक्षण	”
मूत्रशूलके लक्षण	... ४२१	पुनर्नवादि मण्डूर	... ४३२	गुल्मके कारण और लक्षण	”
विद्रशूलके लक्षण	... ”	बृहज्ज्यूपणाद्य मण्डूर	... ”	वातगुल्मकी चिकित्सा ...	४४४
विद्रशूलकी चिकित्सा	... ”	नारिकेल लवण	... ”	हिंगुपंचक	... ”
हिंवादि चूर्ण	... ”	अयोगुग्गुलु	... ४३३	ज्यूपणाद्य घृत	... ४४५
बृहत्तुम्बुवादि चूर्ण	... ४२२	आमलक खण्ड	... ”	हपुपाद्य घृत	... ”
तुम्बुवादि चूर्ण	... ”	अथान्नद्रवशूलनिदान	... ”	चित्रकाद्य घृत	... ”
विश्वादि चूर्ण	... ”	चिकित्सा	... ४३४	हिंवाद्य घृत	... ”
रुचकादि चूर्ण	... ”	गुडमण्डूर	... ४३५	पथ्य	... ४४६
पुनर्नवादि भ्रूद	... ४२३	कलायचूर्णगुटिका	... ”	पित्तगुल्मके कारण	... ”
हिंवादि वटक	... ४२४	उदावर्त्तरोगाधिकार ।	४३६	पित्तगुल्मकी चिकित्सा	... ”
एरण्डाद्य घृत	... ”	उदावर्त्तका निदान	... ४३६	पक्कगुल्म लक्षण	... ”
बीजपूरादि घृत	... ४२५	असाध्य लक्षण	... ४३७	त्रायमाणाद्य घृत	... ४४७
शूलघृत	... ”	चिकित्सा	... ”	द्राक्षाद्य घृत	... ”
शूलके उपद्रव	... ”	अन्यत् उदावर्त्तभेद निदान	४३८	पथ्य	... ”
अपथ्य	... ”	चिकित्सा	... ४३९	कफगुल्मके लक्षण	... ”
परिणामशूलनिदान ।	४२६	श्यामादि	... ”	कफगुल्मकी चिकित्सा	... ”
वातजपरिणामशूल	... ४२६	फलवार्ति	... ४४०	क्षीरपट्टपल घृत...	... ४४८
पित्तजपरिणामशूलके लक्षण	”	नारायणचूर्ण	... ”	व्योषाद्य घृत	... ”
श्लैमिकपरिणामशूलके लक्षण	”	गुडाष्टक	... ”	भल्लातकाद्य घृत...	... ”
द्विदोषज और त्रिदोषज परि-	”	मूलकाद्य घृत	... ”	मिश्रकस्नेह	... ”
णाम शूलके लक्षण	”	स्थिराद्य घृत	... ”	दंतीहरीतक्यवलेह	... ४४९
चिकित्सा	... ”	आनाहरोगाधिकार ।	४४१	पथ्य	... ”
विडंगाद्य मोदक	... ४२७	निदान	... ४४१	द्वन्द्वजगुल्म	... ”
शम्बूकादि मोदक	... ४२८	असाध्य लक्षण	... ”	हिंवादे चूर्ण	... ”
त्रिफलादि लोह	... ”	आनाहरोगकी चिकित्सा	”	द्वितीय हिंवादि चूर्ण	... ४५०
चतुःसमलेह	... ”	त्रिवृताद्या वटिका	... ४४२	पथ्य	... ”
भक्तवारी गुटिका	... ४२९	फलवार्ति	... ”	त्रिदोषगुल्मके लक्षण	... ”
त्रिफलादि लोह	... ”	रामठाद्या वार्ति	... ”	त्रिदोषगुल्मकी चिकित्सा	... ४५१
सामुद्रादि चूर्ण	... ”	त्रिवृताद्या गुटी	... ”	घात्रीफलक घृत	... ”
		त्रिकुटाद्या वार्ति	... ”	वचाद्य चूर्ण	... ४५२

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
भार्ङ्गीपद्वल घृत ...	४ ३	तित्तक चूर्ण ...	४६१	शुक्रजमूत्रकृच्छ्रकी चिकित्सा	४६८
दन्तीघृत ...	"	पथ्य ...	"	मलजनित मूत्रकृच्छ्ररोगके	
विन्दुघृत ...	"	त्रिदोषज और कृमिजनित हृदय-		लक्षण ...	"
दधिघृत ...	"	रोगके लक्षण ...	"	सुकुमारकुमारक पुनर्नवादि	
नीलिनीघृत ...	"	उपद्रव ...	"	लेह ...	४७०
वचाघृत ...	४५४	चिकित्सा ...	४६२	मूत्राघातरोगा-	
कांकायनगुटिका ...	"	वल्लभ घृत ...	४६३	धिकार ।	४७०
हिंवादि वटिका ...	४५५	क्षीरवल्लभ घृत ...	"	मूत्राघातका निदान ...	४७०
आरोग्यवटिका ...	"	अर्जुन घृत ...	"	वातकुण्डलिकाके लक्षण	"
नादेयी क्षार ...	४५६	बलाघ घृत ...	"	अष्टीलाके लक्षण ...	४७१
हिंवादि चूर्ण ...	"	उरोग्रहाधिकार । ४६३		वातवस्तिके लक्षण ...	"
रक्तगुल्मकी संप्राप्ति निदान		उरोग्रह निदान और संप्राप्ति		मूत्रातीतके लक्षण ...	"
और लक्षण ...	"	लक्षण ...	४६३	मूत्रजठरके लक्षण ...	"
रक्तगुल्मकी चिकित्सा ...	"	चिकित्सा ...	४६४	मूत्रोत्संगके लक्षण ...	"
शताह्वादि कल्क ...	"	मूत्रकृच्छ्ररोगाधिकार । ४६४		मूत्रक्षयके लक्षण ...	"
तिलकाथ ...	४५७	मूत्रकृच्छ्रका निदान ...	४६४	मूत्र ग्रन्थिके लक्षण ...	४७२
पलाश क्षार घृत ...	"	संप्राप्ति ...	"	मूत्रशुक्रके लक्षण ...	"
कह्लार घृत ...	"	वातोत्पन्न मूत्रकृच्छ्रके लक्षण	४६५	उष्णवातके लक्षण ...	"
असाध्य लक्षण ...	"	पित्तोत्पन्न मूत्रकृच्छ्रके लक्षण	"	मूत्रसादके लक्षण ...	"
हृदयरोगाधिकार । ४५८		कफज मूत्रकृच्छ्रके लक्षण	"	विडविघातके लक्षण ...	"
हृदयरोगका निदान ...	४५८	सन्निपातोद्भव मूत्रकृच्छ्रके लक्षण	"	वस्तिकुण्डलके लक्षण ...	"
वातज हृदयरोगके लक्षण	"	शल्यज मूत्रकृच्छ्रके लक्षण	"	मूत्राघातकी चिकित्सा ...	४७३
हृदयरोगकी चिकित्सा ...	"	पुरीषज मूत्रकृच्छ्रके लक्षण	"	शिलोद्भिदादि तैल ...	४७४
पुष्करादि कल्क ...	४५९	अश्मरीजन्यमूत्रकृच्छ्रके लक्षण	"	धान्यगोक्षुरक घृत ...	"
पुष्करादि काथ ...	"	शुक्रजमूत्रकृच्छ्रके लक्षण	"	भद्रावह घृत ...	"
हरीतक्यादि घृत ...	"	चिकित्सा ...	"	विदारी घृत ...	४७५
पुनर्नवादि तैल ...	"	पुनर्नवाद्य मिश्रक ...	४६६	क्षौद्रार्द्धभाग घृत ...	४७६
पथ्य ...	"	पित्तजमूत्रकृच्छ्रकी चिकित्सा	"	अश्मरीरोगाधिकार । ४७६	
पित्तज हृदयरोगके लक्षण	"	तृणपंचमूल ...	"	अश्मरीरोग निदान ..	४७६
चिकित्सा ...	"	शतावर्यादि काथ ...	"	सम्प्राप्ति ...	४७७
अर्जुनक्षीरपाक ...	४६०	एत्रारु बीजादि पान ...	"	पूर्वरूप ...	"
ककुभादि चूर्ण ...	"	हरीतक्यादि काथ ...	"	सामान्य लक्षण ...	"
कसेरुकाद्य घृत ...	"	शतावरी घृत ...	४६७	वातोत्पन्न पथरीकी चिं०	"
श्रेयस्याद्य घृत ...	"	त्रिकण्टाद्य घृत ...	"	शुण्ठ्यादि काथ ...	"
स्थिराद्य घृत ...	"	कफज मूत्रकृच्छ्रचिकित्सा	"	एलादि काथ ...	४७८
पथ्य ...	"	त्रिदोषज मूत्रकृच्छ्रकी चिकित्सा,	"	वरुणादि काथ ...	"
कफज हृदयरोगके लक्षण	"	अभिघातजनित मूत्रकृच्छ्रकी		पापाणभेदादि घृत ...	"
चिकित्सा ...	४६१	चिकित्सा ...	४६८	वीरतरादि गण ...	"

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
पित्तोल्बणअश्मरीके लक्षण	४७८	स्त्रियोंके प्रमेह न होनेका		मेदवृद्धिके लक्षण	... ४९८
पित्तोल्बणअश्मरीकी		कारण	४८८	चिकित्सा	... ४९९
चिकित्सा	... ४७९	असाध्यलक्षण	...	उद्धर्तन	... ५०१
कुशादि घृत	...	सर्वप्रमेहोंकी उपेक्षा करनेसे		अमृतादि गुग्गुलु	... "
कफोल्बणाश्मरीनिदान...	"	मधुमेह होता है	...	दशांग गुग्गुलु	... "
कफोल्बण अश्मरीकी चिकित्सा	"	मधुमेहशब्दकी प्रवृत्तिमें कारण	४८९	लोहरसायन	... "
वरुणादि घृत	...	प्रमेहोंकी उपेक्षा करनेसे दश		लोहारिष्ट	... ५०२
शुक्रजाश्मरीनिदान	... ४८०	प्रकारकी पिडिका	...	व्योपाय सत्तुप्रयोग	... "
उपद्रव	...	दशप्रकारकी पिडिकाओंके ल०	"	त्रिफलादि तैल	... ५०३
अरिष्ट	...	प्रमेहकी पिडिकाओंके लक्षण	"	महासुगन्धित तैल	... "
शुक्रजाश्मरीकी चिकित्सा	"	प्रमेहकी पिडिकाओंमें दोषोका		उदररोगाधिकार !	५०५
पञ्चमूलादि घृत	... ४८१	निर्णय	...	उदररोगका निदान	५०५
वरुण तैल	... ४८२	बिनाप्रमेहके पिडिकाओंका		उदररोगकी सम्प्राप्ति	...
कुशादि तैल	...	होना	... ४९०	उदररोगके पूर्व लक्षण	...
सामान्य चिकित्सा	...	पिडिकाओंकी असाध्यता	"	उदररोगके सामान्य लक्षण	"
वरुणादि चूर्ण	... ४८३	पिडिकाओंके उपद्रव	...	उदररोग संख्या	...
वरुणकगुड	...	प्रमेहरोगकी चिकित्सा...	"	वातोदरके लक्षण	... ५०६
कुलित्थाद्य घृत	... ४८४	प्रमेहमें हितकारक पदार्थ	"	साध्यासाध्य विचार	"
शरादि पंच मूल घृत	...	प्रमेहरोगमें त्याज्य पदार्थ	"	अजातोदकके लक्षण	"
वरुणघृत	...	न्यग्रोधादि चूर्ण	... ४९३	वातोदरकी चिकित्सा	"
वीरतरादि तैल	...	त्रिकट्वाद्यां गुटिका	...	एरण्डादि तैल	...
द्वितीय वीरतरादि तैल	४८५	दाडिमाद्य घृत	... ४९४	सामुद्राय चूर्ण	... ५०७
पुनर्नवादि तैल	...	गोक्षुरादि चूर्ण गुटिका...	"	दशमूलषट्पल घृत	...
प्रमेहरोगाधिकार ।	४८६	सिहामृत घृत	...	दशमूलाद्य घृत	"
प्रमेहका निदान	... ४८६	धान्वंतर घृत	... ४९५	लशुन तैल	...
प्रमेहकी सम्प्राप्ति	...	अर्जुनादि घृत वा तैल	...	पित्तादर निदान	... ५०८
दोषदूष्योंका वर्णन	...	गोक्षुराद्यबलेह	... ४९६	पित्तोदरकी चिकित्सा	...
पूर्वरूप	...	सार लेह	...	कफोदरनिदान	... ५०९
सामान्य लक्षण	...	असनादि योग	...	कफोदरचिकित्सा	...
प्रमेहके कारण	...	शिलाजितु स्वर्णमाक्षिक और		सन्निपातोदरनिदान	...
दश कफप्रमेहोके लक्षण	४८७	रौप्यमाक्षिक प्रयोग	... "	चिकित्सा	... ५१०
पित्तके छः प्रमेहोके लक्षण	"	प्रमेह पिडिकाओंकी		नागराय यमक	...
वातके ४ प्रमेहोके लक्षण	"	चिकित्सा	... ४९८	पटोलादि चूर्ण	... ५१३
प्रमेहके उपद्रव	...	प्रमेहसे आरोग्य हुएकी		नारायणचूर्ण	...
कफप्रमेहके उपद्रव	...	परीक्षा	...	महाक्षार	... ५१४
पित्तजप्रमेहके उपद्रव	...	मेदरोगाधिकार ।	४९८	नाराच घृत	...
वातजप्रमेहके उपद्रव	...	मेदरोगका निदान	... ४९८	द्वितीय नाराच घृत	... ५१५
प्रमेहका अरिष्ट	"	मेदवृद्धिकी सम्प्राप्ति	"	त्रिवृतादि घृत.	...

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
विन्दु घृत ...	५१५	शोथरोगाधिकार ।	५२९	त्रिकुटादि लोह ...	५४२
शालीपर्णी तैल ...	"	शोथ रोगका निदान ...	५२९	शोथोदर लोह ...	"
प्लीहोदरनिदान ...	५१६	सामान्य लक्षण ...	"	अन्त्रवृद्धिरोगा-	
प्लीहोदरकी चिकित्सा ...	५१७	वातज शोथके लक्षण ...	"	धिकार ।	
यवान्यादि चूर्ण ...	५१८	पित्तज शोथके लक्षण ...	५३०	अण्डवृद्धिनिदान ...	५४३
विडंगादि चूर्ण ...	"	कफज शोथके लक्षण ...	"	वातादिजन्य वृद्धिके लक्षण	"
भल्लातक मोदक ...	"	द्वन्द्वज और सन्निपातज	"	मूत्रजवृद्धिके लक्षण ...	"
अभया वटक ...	५१९	शोथोंके लक्षण ...	"	अन्त्रवृद्धिके लक्षण ...	"
अग्निमुख लवण ...	"	अभिघातज शोथके लक्षण	"	इसकी उपेक्षा करनेका फल	"
पट्टलक घृत ...	"	विपज शोथके लक्षण...	"	असाध्य लक्षण ...	५४४
वह्निषट्प्रस्थ घृत ...	"	दोषपरत्वसे सूजनका स्थाना-	"	अपथ्य ...	"
चित्रक घृत ...	५२०	न्तरकथन ...	"	अन्त्रवृद्धिकी चिकित्सा ...	"
चित्रकादि घृत ...	"	शोथके कृच्छ्रादि भेद ...	५३१	पञ्चवलकल ...	"
ब्राह्म घृत ...	"	असाध्य लक्षण ...	"	शिरावेध ...	५४६
शंखद्राव ...	५२१	आमयुक्त शोथके लक्षण	"	कुरण्डरोगक निदान और	"
रोहीतकाद्य घृत ...	"	शोथकी चिकित्सा ...	"	लक्षण ...	५४७
महारोहातक घृत ...	"	पुनर्नवादि लेह ...	५३३	कुरण्डरोगकी चिकित्सा	"
कदलीक्षार तैल ...	५२२	द्विदोषज और त्रिदोषज	"	गतपुष्पाद्य घृत ...	"
माणादि गुटिका ...	"	शोथकी चिकित्सा...	५३४	गन्धर्वहस्त तैल ...	५४८
चित्रक लेह ...	"	मानामण्ड ...	५३७	ब्रध्नरोगाधिकार ।	
क्षारीपिप्पली ...	५२३	गुडचूर्ण ...	"	ब्रध्न (वद) का निदान	५४८
वृहत्क्षारपिप्पली ...	"	द्वितीयगुडचूर्ण ...	५३८	ब्रध्नरोगकी चिकित्सा ...	"
अभया लवण ...	"	पुनर्नवाद्य चूर्ण ...	"	विल्वाद्य चूर्ण ...	५४९
यकृतोदर निदान ...	५२४	गोमूत्र मण्डूर ...	"	वृहत्सैन्धवाद्य तैल ...	"
यकृतोदरकी चिकित्सा	"	पुनर्नवाद्य घृत ...	"	गलगण्डरोगाधिकार ।	
चित्रक घृत ...	"	द्वितीय पुनर्नवादि घृत ...	५३९	गलगण्डका निदान ...	५५०
पिप्पली घृत ...	"	चित्रकादि घृत ...	"	गलगण्डकी सम्प्राप्ति ...	"
वड्गुदोदरके लक्षण ...	"	द्वितीय चित्रक घृत ...	"	वातिकगलगण्डके लक्षण	"
क्षतांदरके लक्षण ...	५२५	साधक घृत ...	"	कफजगलगण्डके लक्षण ...	"
उत्पत्तिसहित जलोदरके लक्षण	"	स्थलपद्मकादि घृत ...	"	मदजगलगण्डके लक्षण	"
चिकित्सा ...	"	पञ्चकोलक घृत ...	"	असाध्य लक्षण ...	"
क्षारगुटिका ...	"	शुष्कमूलकादि तैल ...	"	गलगण्डकी चिकित्सा ...	"
उदरादि लोह ...	५२६	त्रैतसादि प्रदेह ...	५४०	हिस्साद्य तैल ...	५५२
साध्यासाध्य विचार ...	५२७	यवादि तैल ...	"	अमृताद्य तैल ...	"
कतिपय योग ...	५२८	शैलादि तैल ...	"	शाखोटाद्य तैल ...	"
आर्द्रकघृत ...	"	पञ्चमूलादि तैल ...	"	काञ्चनारगुग्गुल गुटिका	"
विल्वादि घृत ...	"	कंसहरीतकी ...	"	पथ्य ...	"
		दगमूल हरीतकी ...	५४१		
		पथ्यापथ्य ...	"		

विषय.	पृष्ठ.	विषय	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
गण्डमाला रोगाधिकार ।	५५३	पित्तजश्लेष्मपदके लक्षण ...	५६३	त्रणशोथाधिकार ।	५७५
गण्डमाला और अपचिके लक्षण ...	५५३	कफजश्लेष्मपदके लक्षण ...	५६३	शोथका पूर्वरूप ...	५७५
साध्य और असाध्य लक्षण ...	५५३	असाध्य लक्षण ...	५६३	त्रण पाक ...	५७६
गण्डमालाकी चिकित्सा ...	५५३	श्लेष्मपदकी चिकित्सा ...	५६४	अपक त्रणशोथके लक्षण ...	५७६
चंदनाद्य तैल ...	५५४	गोमूत्रहरतिकी ...	५६६	पच्यमान त्रणशोथके लक्षण ...	५७६
व्योषाद्य तैल ...	५५४	कृष्णाद्य मोदक ...	५६६	पक्वत्रणशोथके लक्षण ...	५७६
काकादन्यादि तैल ...	५५४	पिप्पलाद्य चूर्ण ...	५६६	गम्भीरपाकके लक्षण ...	५७६
महाअजमोदाद्य तैल ...	५५४	वृद्धदारुक चूर्ण ...	५६६	सूजनमे एक दोपउत्पन्न होनेके समय तीनों दोषोका प्रादुर्भाव होता है ...	५७७
वचाद्य घृत ...	५५५	निर्गुण्ड्यादि मण्ड ...	५६७	शोथके पकनेमे मतान्तर ...	५७७
चक्रमर्दादिसिन्दूर तैल ...	५५५	द्वितियापिप्पल्यादि चूर्ण ...	५६७	पक्वत्रणमेसे राध न निकालनेका परिणाम ...	५७७
निर्गुण्डी तैल ...	५५५	काकादन्यादि क्षार ...	५६७	त्रणशोथके पक्वापक जाननेमे वैद्यके गुणदोष ...	५७७
गुञ्जाद्य तैल ...	५५५	सोरेश्वरघृत ...	५६८	त्रणरोग निदान ...	५७७
तुम्बी तैल ...	५५५	दन्ती घृत ...	५६८	वातजत्रणके लक्षण ...	५७७
शाखोटकवित्वाद्य तैल ...	५५६	वृद्धदारुक घृत और तैल ...	५६९	पित्तजत्रणके लक्षण ...	५७८
छुच्छुन्दरी तैल ...	५५६	विडंगाद्य तैल ...	५६९	कफज णके लक्षण ...	५७८
त्रिफलादि गुग्गुल ...	५५६	विद्राधिरोगाधिकार ।	५६९	रक्तज और द्वन्द्वजत्रणके लक्षण ...	५७८
ग्रन्थिरोगाधिकार ।	५५६	विद्राधिका संप्राप्तिपूर्वक निदान ...	५६९	मुखसाध्यत्रणके लक्षण ...	५७८
वातजग्रन्थिके लक्षण ...	५५७	वातजविद्राधिके लक्षण ...	५६९	कृच्छ्रलाध्य और असाध्यत्रणके लक्षण ...	५७८
पित्तजग्रन्थिके लक्षण ...	५५७	पित्तजविद्राधिके लक्षण ...	५७०	दुष्टत्रणके लक्षण ...	५७८
कफजग्रन्थिके लक्षण ...	५५७	कफजविद्राधिके लक्षण ...	५७०	शुद्धत्रणके लक्षण ...	५७८
भेदजग्रन्थिके लक्षण ...	५५७	पकनेके अनन्तर उनका घ्राव ...	५७०	भरनेवाले त्रणके लक्षण ...	५७८
शिराजग्रन्थिके लक्षण ...	५५७	सन्निपातजाविद्राधिके लक्षण ...	५७०	व्याधि विशेषसे त्रणको कृच्छ्रसाध्यत्व कहते हैं ...	५७९
साध्यासाध्य लक्षण ...	५५७	आगन्तुकविद्राधिके लक्षण ...	५७०	साध्यासाध्य लक्षण ...	५७९
ग्रन्थिकी चिकित्सा ...	५५७	रक्तजविद्राधिके लक्षण ...	५७०	त्रणरोगकी चिकित्सा ...	५७९
अर्बुदरोगाधिकार ।	५५९	अन्तर्विद्राधिके लक्षण ...	५७०	वृहन्न्यग्रोधादि लेप ...	५८०
अर्बुदरोगका संप्राप्ति निदान ...	५५९	विद्राधिके स्थान ...	५७०	उपनाह द्रव्य ...	५८१
रक्तार्बुदके संप्राप्ति लक्षण ...	५६०	खाव निर्गम ...	५७१	रक्त मोक्षण ...	५८१
मांसार्बुदके लक्षण ...	५६०	साध्यासाध्यता ...	५७१	शस्त्रसे भेदन निषेध ...	५८२
अध्यर्बुदके लक्षण ...	५६०	विद्राधिके उपद्रव ...	५७१	शोधन ...	५८२
द्विर्बुदके लक्षण ...	५६०	स्तन विद्राधि ...	५७२	त्रणरोगियोंका भोजन ...	५८६
अर्बुद न पकनेका कारण ...	५६०	विद्राधिकी चिकित्सा ...	५७२	अपच्य ...	५८६
अर्बुदकी चिकित्सा ...	५६०	भूनिम्बाद्य चूर्ण ...	५७४		
श्लेष्मपदरोगाधिकार ।	५६३	वरुणकाद्य घृत ...	५७४		
श्लेष्मपदका निदान ...	५६३	करञ्ज घृत ...	५७५		
वातजश्लेष्मपदके लक्षण ...	५६३	प्रियंगवाद्य तैल ...	५७५		
		द्विपञ्चमूली तैल ...	५७५		

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
आगन्तुकव्रणरोगा- धिकार ।	५८७	सप्तविंशतिक गुग्गुलु ...	५९४	पित्तजनाडीव्रणकी चिकित्सा	६०३
आगन्तुक व्रणकी संख्या और संप्राप्ति.	... ५८७	अग्निदग्धव्रण निदान ...	"	श्यामा घृत ...	६०४
छिन्नके लक्षण	... "	अग्निदग्धकी चिकित्सा ...	५९५	कफजनाडीव्रणकी चिकित्सा	"
भिन्नके लक्षण	... "	पथ्यादि लेप ...	"	स्वर्जिकाद्य तैल ...	"
कोष्ठके लक्षण	... "	मधूच्छिष्टाद्य घृत ...	५९६	सैधवाद्य तैल ...	"
इन भेदोंके लक्षण	... "	लांगली घृत ...	"	शल्यजनाडीव्रणकी चिकित्सा	"
आमाशयस्थित रक्तके लक्षण	५८८	पटोली तैल ...	"	कुम्भीकाद्य तैल ...	"
पक्काशयस्थके लक्षण	... "	चन्दनाद्य तैल ...	"	मेषरोममषी ...	६०५
विद्धव्रणके लक्षण	... "	अपथ्य ...	"	कर्पूराद्य तैल ...	"
क्षतके लक्षण	... "	व्रणग्रन्थिकी चिकित्सा	५९७	स्वर्जिकाद्य तैल ...	"
पिचिंतके लक्षण	... "	कम्पिलक तैल ...	"	सप्ताङ्ग गुग्गुलु ...	६०६
घृष्टके लक्षण	... "	भ्रमरोगाधिकार ।	५९७	भगन्दररोगा- धिकार ।	६०६
शल्यसाहितव्रणके लक्षण	"	सन्धिभ्रमके सामान्य लक्षण	५९७	भगदरका पूर्वरूप ...	६०६
कोष्ठभेदके लक्षण	... "	काण्डभ्रमके सामान्य लक्षण	"	वातजशतेपानक भगन्दरके निदान और लक्षण...	६०७
असाध्यके लक्षण	... "	कष्टसाध्य ...	५९८	पौत्तिक उष्ट्रग्राव भगन्दरके निदान और लक्षण ...	"
मर्मोंमें चोट लगनेसे जो व्रण होता है उसका सामान्य लक्षण	५८९	असाध्य लक्षण ...	"	श्लेष्मिकपरिस्रावी भगन्दरके लक्षण ...	"
मर्मरहित शिराविद्धके लक्षण	"	भ्रमरोगकी चिकित्सा ...	५९९	त्रिदोषजन्यशम्बूकवर्त भगन्दरलक्षण ...	"
स्नायुविद्धके लक्षण	"	आभागुग्गुलु ...	६००	शल्यसम्बन्धी उन्मार्ग भगन्दरके लक्षण ...	"
सन्धिविद्धके लक्षण	... "	लाक्षादि गुग्गुलु ...	"	साध्यासाध्य लक्षण ...	"
अस्थिविद्धके लक्षण	... "	गन्धतैल ...	"	भगन्दररोगकी चिकित्सा	"
मर्मविद्धके लक्षण	... "	अवस्थानुसार भ्रमकी साध्यतादि ...	६०१	विष्यन्दन तैल ...	६०९
मांस मर्म व्रणके लक्षण	"	विशेष उपदेश ...	६०२	निशाद्य तैल ...	"
व्रणायामके लक्षण	... ५९०	अपथ्य ...	"	करवरीद्य तैल ...	"
सर्वव्रणके लक्षण	... "	भ्रमआरोग्यके लक्षण ...	"	नवकार्पिक गुग्गुलु ...	६१०
आगन्तुकव्रणकी चिकित्सा	"	नाडीव्रणरोगा- धिकार ।	६०२	पथ्यापथ्य ...	६११
गुग्गुलुवटिका ...	५९२	नाडीव्रणकी संख्यारूप सम्प्राप्ति ...	६०२	उपदंशरोगा- धिकार ।	६११
अमृत गुग्गुलु ...	"	वातजनाडीव्रणके लक्षण ...	"	वातोपदंशके लक्षण ...	६११
जान्यादि घृत ...	"	पित्तज नाडीव्रणके लक्षण...	"	पित्तोपदंशवारक्तोपदंशके लक्षण ...	"
तिक्ताद्य घृत ...	"	कफज नाडीव्रणके लक्षण...	६०३	कफोपदंशके लक्षण ...	"
जीवितकाद्य तैल ...	"	द्विदोषजनाडीव्रणके लक्षण	"		
विपरतिमह तैल ...	५९३	त्रिदोषजनाडीव्रणके लक्षण...	"		
घुठार तैल ...	"	शल्यजनाडीव्रणके लक्षण ...	"		
दूर्वाद्य तैल ...	"	साध्यासाध्य लक्षण ...	"		
नूत तैल ...	"	नाडीव्रणकी चिकित्सा	"		
वटिका गुग्गुलु ...	"	हिंसाद्य तैल ...	"		

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.	विषय	पृष्ठ.
त्रिदोषज उपदशके लक्षण	६११	प्रकार कथन . . .	६२०	निम्बादि महाकषाय ...	६२५
असाध्य लक्षण ...	"	कुष्ठके पूर्वरूप ...	६२१	मञ्जिष्ठादि महाकषाय... ..	"
उपदशकी उपक्षाका फल	"	कपालकुष्ठके लक्षण ...	"	उदयमार्कण्ड महाकषाय	६३०
लिङ्गार्शके लक्षण ...	६१२	औदुम्बरकुष्ठके लक्षण . . .	"	कुष्ठपर लेप ...	६३१
उपदश रोगोकी चिकित्सा	"	मण्डलकुष्ठके लक्षण ...	"	धत्तूर तैल ...	६३२
करञ्जाद्य घृत ...	६१४	ऋक्षजिह्वकुष्ठके लक्षण ...	"	श्रीवास घृत ...	६३३
भूनिम्बाद्य तैल ...	६१५	पुण्डरीककुष्ठके लक्षण ...	"	सिन्दूराद्य तैल ...	"
आगारधूमाद्य तैल ...	"	सिध्मकुष्ठके लक्षण ...	"	वृहत्सिन्दूराद्य तैल ...	"
गोजी तैल ...	"	काकणकुष्ठके लक्षण ...	६२२	अर्क तैल ...	६३४
जम्बवाद्य तैल ...	"	ग्यारहक्षुद्रकोटोंके लक्षण	"	त्रिफलाद्य गुटिका ...	"
कोशातकी तैल ...	"	चर्मकुष्ठके लक्षण ...	"	शशांकलेखादि लेह ...	"
पथ्य ...	"	किटिभकुष्ठके लक्षण ...	"	त्रिफलाद्य मोदक ...	"
लिङ्गार्शकी चिकित्सा ...	६१६	वैपादिककुष्ठके लक्षण ...	"	महाभलातक ...	६३५
शूकदोषरोगाधिकार । ६१६		अलसककुष्ठके लक्षण ...	"	पञ्चनिम्बादि चूर्ण ...	६३६
सर्षपिकाके लक्षण ...	६१६	दद्रुमण्डलकुष्ठके लक्षण ...	"	त्रिफलाद्य चूर्ण ...	६३७
अष्टीलाके लक्षण ...	"	चर्मदलकुष्ठके लक्षण ...	"	पथ्याद्य वटक ...	"
ग्रथितके लक्षण ...	"	पामाकुष्ठके लक्षण ...	"	तिक्तषट्क घृत ...	"
कुम्भिकाके लक्षण ...	"	कच्छुकुष्ठके लक्षण ...	"	पञ्चित्तक घृत ...	६३८
अलजीके लक्षण ...	"	विस्फोटककुष्ठके लक्षण...	"	द्वितीय पञ्चित्तक ...	"
मुदितके लक्षण ...	"	शतारुकुष्ठके लक्षण ...	"	गुग्गुलुपञ्चित्तक घृत	"
संमूढपिडिकाके लक्षण...	"	विचर्चिकाके लक्षण ...	६२३	द्वितीयगुग्गुलुपञ्चित्तक घृत	"
अवमन्थपिडिकाके लक्षण	६१७	वातजादिकुष्ठोंके लक्षण...	"	महातिक्तक घृत ...	६३९
पुष्कारिकाके लक्षण ...	"	सप्तधातुगतकुष्ठोंके लक्षण	६२४	वज्रक घृत ...	"
स्पर्शहानिके लक्षण ...	"	रसगतकुष्ठके लक्षण ...	"	महावज्रक घृत ...	६४०
उत्तमाके लक्षण ...	"	रक्तगत कुष्ठके लक्षण ...	"	खादिराद्य घृत ...	"
शतपानकके लक्षण ...	"	मांसगतकुष्ठके लक्षण ...	"	महाखदिर घृत ...	"
त्वक्पाकके लक्षण ...	"	मेदोगतकुष्ठके लक्षण ...	"	मेपशृङ्गाद्य तैल ...	६४१
शोणितार्जुदके लक्षण ...	"	अस्थिमज्जागतकुष्ठके लक्षण	"	वज्रक तैल ...	"
मांसार्जुदके लक्षण ...	"	शुक्रार्त्तवगतकुष्ठके लक्षण	"	महावज्रक तैल ...	"
मांसपाकके लक्षण ...	"	साध्यासाध्य विचार ...	६२४	तृण तैल ...	"
विद्रधिके लक्षण ...	"	प्रधानदोषके लक्षण ...	"	वृहत्तृण तैल ...	६४२
तिलकालकके लक्षण . . .	६१८	श्वित्र लक्षण	"	मरिचाद्य तैल ...	"
असाध्य लक्षण ...	"	दोषभेदसे लक्षण भेद ...	"	द्वितीय मरिचाद्य तैल ...	"
शूकदोषकी चिकित्सा ...	"	श्वित्रकी साध्यासाध्यता...	६२५	तृतीयमरिचाद्य तैल ...	६४३
दार्वा तैल ...	६१९	सांसर्गिक रोग ...	"	चतुर्थमरिचाद्य तैल ...	"
कुष्ठरोगाधिकार । ६२०		कुष्ठरोगकी चिकित्सा ...	"	विपतैल ...	६४४
कुष्ठरोगका निदान ..	६२०	खदिराष्टक ...	६२९	सोमराजी तैल ...	६४५
कुष्ठ उत्पन्न होनेके विशेषकारण	"	नवकषाय ...	"	श्वेतकरवीराद्य तैल ...	"

विषय.	पृष्ठ.	विषय	पृष्ठ.	विषय	पृष्ठ.
गण्डीराघ तैल	... ६४५	द्राक्षादि गुटिका	... ६६०	साध्यासाध्य विचार	... ६६८
स्नुहाद्य तैल	.. "	विसर्परोगाधिकार ।	६६०	विस्फोटकके उपद्रव	... ६६९
कनकविन्दुनामारिष्ट	... "	विसर्पके सातप्रकार	... ६६०	विस्फोटककी चिकित्सा...	.. "
पथ्यापथ्य	.. ६४६	विसर्पके दोषदूष्य	... ६६१	दशांग लेप	... ६७०
श्वित्रकुष्ठकी चिकित्सा	.. "	वातजविसर्पके लक्षण	... "	पद्मक घृत	... "
सोमराजी घृत	... ६४८	पित्तज विसर्पके लक्षण	... "	पञ्चतित्तक घृत	... ६७१
नीली घृत	.. "	कफजविसर्पके लक्षण	... "	कम्प्लेकाद्य तैल	... "
महानीली घृत	... "	सन्निपातजविसर्पके लक्षण...	.. "	स्नायुरोगाधिकार । ६७१	
ज्योतिष्मती तैल	... ६४९	वातपित्तोत्पन्न आग्नेयविसर्पके		स्नायुरोगकी चिकित्सा	... ६७१
त्रिपतैल	.. "	लक्षण	... "	मञ्जिष्ठादि प्रलेप	... ६७२
उदरदशीतपित्तकोठा-		वातपित्तोद्भव ग्रन्थि		मसूरिकारोगा-	
धिकार ।	६४९	विसर्पके लक्षण	... ६६२	धिकार ।	६७२
शीतपित्तके पूर्वरूप	... ६४९	कफापित्तोत्पन्नकर्दमक विसर्पके		मसूरिकाके पूर्वरूप	... ६७२
उदरद या शीतपित्तके लक्षण	६५०	लक्षण	... "	वातजमसूरिकाके लक्षण...	६७३
कोढके लक्षण	... "	क्षतजविसर्पके लक्षण	... "	पित्तजमसूरिकाके लक्षण...	.. "
उदरदकी चिकित्सा	... "	विसर्पक उपद्रव	... "	रक्तजमसूरिकाके लक्षण...	.. "
सिद्धार्थकाद्युद्धर्तन	... ६५१	साध्यासाध्य लक्षण	... ६६३	कफजमसूरिकाके लक्षण...	.. "
अम्लपित्ताधिकार ।	६५२	विसर्परोगकी चिकित्सा...	.. "	त्रिदोषजमसूरिकाके लक्षण	.. "
अम्लपित्तके लक्षण	... ६५२	दशांग लेप	... ६६४	चर्मपिडिका	... "
प्रथम अधोगत अम्ल-		वृषाद्य. घृत	... ६६६	रोमान्तिक	... "
पित्तके लक्षण	... "	गौरवाद्य घृत	... "	सप्तधातुगत मसूरिकाके लक्षण	६७४
ऊर्ध्वगत अम्लपित्तके लक्षण	.. "	करञ्ज तैल	... ६६७	साध्यासाध्य विचार	... "
अम्लपित्तकी विशेष अवस्था	.. "	विस्फोटकरोगा-		मसूरिकाका अरिष्ट	... ६७५
साध्यासाध्यता	... "	धिकार ।	६६७	अथान्यग्रन्थान्तरात्	.. "
अम्लपित्तमें दोषोंका संसर्ग	६५३	विस्फोटकका स्वरूप	... ६६७	मसूरिकाका अन्यभेद	.. "
दोषभेदोंसे लक्षणभेद	... "	वातजविस्फोटकके लक्षण	.. "	मसूरिकाकी चिकित्सा	... ६७६
कफपित्तके लक्षण	... "	पित्तजविस्फोटकके लक्षण	.. "	धूप	... "
अम्लपित्तकी चिकित्सा	... "	कफजविस्फोटकके लक्षण	.. "	पटोलादि काथ	... ६७८
पिप्पली घृत	... ६५६	कफपित्तात्मक विस्फोटकके		निम्बादि काथ	... ६७९
शतावरी घृत	.. "	लक्षण	... ६६८	साध्यासाध्य विचार	... "
रसामृतचूर्ण	... ६५७	वातपित्तात्मक विस्फोटकके		दावी घृत	... ६८१
नारिकेल खण्ड	... "	लक्षण	... "	क्षुद्ररोगाधिकार ।	६८२
वृहन्नारिकेल खण्ड	... "	कफवातात्मक विस्फोटकके		अजगल्लिकाके लक्षण	... ६८२
नारिकेलामत	... ६५८	लक्षण	... "	अजगल्लिकाकी चिकित्सा...	.. "
अविपत्यकर चूर्ण	... ६५९	त्रिदोषजन्य विस्फोटकके		विवृतापिडिका के लक्षण	... "
पिप्पलाद्यवलेह	... "	लक्षण	... "	इन्द्रवृद्धाके लक्षण	... "
खण्ड कूपमाण्ड	... ६६०	रक्तजविस्फोटकके लक्षण	... "	गर्दभिकाके लक्षण	... "
द्राक्षाद्य घृत	... "				

विषय	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ	विषय.	पृष्ठ.
पापाणगर्दभके लक्षण ...	६८२	कदरके लक्षण ...	६९०	वल्मीकके असोध्य लक्षण	७०७
पनासिकाके लक्षण ...	६८३	कदरकी चिकित्सा ...	"	गुदभ्रंशके लक्षण ...	"
जालगर्दभके लक्षण ...	"	चिप्यके लक्षण ...	"	गुदभ्रंशकी चिकित्सा ...	"
इरिवेलिकाके लक्षण ...	"	चिप्यकी चिकित्सा ...	"	मूषकाद्य तैल ...	७०१
कक्षाके लक्षण ...	"	कुनखके लक्षण ...	६९१	द्वितीयमूषकाद्य तैल ...	"
गन्धनाम्नीके लक्षण ...	"	कुनखकी चिकित्सा ...	"	तृतीयमूषकाद्य तैल ...	"
विवृता पिडिकाकी चिकित्सा	"	अलसके लक्षण ...	६९२	चतुर्थमूषकाद्य तैल ...	"
अन्त्रालजाक लक्षण ...	"	अलसकी चिकित्सा ...	"	शूकरदंष्ट्रके लक्षण ...	"
यवप्रख्याके लक्षण ...	६८४	अरुपिकाके लक्षण ...	"	शूकरदंष्ट्रकी चिकित्सा ...	७०२
कच्छपिकाके लक्षण ...	"	अरुपिकाकी चिकित्सा ...	"	मेघ्याविक तैल ...	"
अन्त्रालजीकी चिकित्सा	"	स्तुहाद्य तैल ...	६९३	परिवर्तिकाके लक्षण ...	"
अनुशयीके लक्षण ...	"	मांसी तैल ...	"	परिवर्तिकाकी चिकित्सा	"
अनुशयीकी चिकित्सा ...	"	दारुणकके लक्षण ...	"	अवपाटिकाके लक्षण ...	७०३
विदारिकाके लक्षण ...	"	दारुणककी चिकित्सा ...	६९४	अवपाटिकाकी चिकित्सा	"
विदारिकाकी चिकित्सा	"	गुञ्जादि तैल ...	"	निरुद्धप्रकाशके लक्षण...	"
शर्कराके संप्राप्ति लक्षण ...	६८५	कीचकाद्य तैल ...	"	निरुद्धप्रकाशकी चिकित्सा	"
शर्करावृद्धके लक्षण ...	"	चित्रक तैल ...	"	सन्निरुद्धगुदके लक्षण ...	७०४
शर्करावृद्धकी चिकित्सा	"	भृंगराज तैल ...	"	सन्निरुद्धगुदकी चिकित्सा	"
जंतुमणिका निदान ...	"	इन्द्रलुप्रके लक्षण ...	"	अहिपूतनके लक्षण ...	"
मापके लक्षण ...	"	इन्द्रलुप्रकी चिकित्सा ...	"	अहिपूतनकी चिकित्सा ...	"
जंतुमणिकादेकी चिकित्सा	"	स्तुह्यादिखालित्यहर तैल	६९६	पटोल घृत ...	"
मुखद्वीपकाके लक्षण ...	६८६	यष्टीमधुकाद्य तैल ...	"	वृषणकच्छूके लक्षण ...	७०५
न्यच्छके लक्षण ...	"	पलितके लक्षण ...	"	वृषणकच्छूकी चिकित्सा...	"
व्यंगके लक्षण ...	"	पलितकी चिकित्सा ...	"	चर्मकीलके लक्षण ...	"
नीलिकाके लक्षण ...	"	निम्बवीज तैल ...	"	चर्मकीलकी चिकित्सा ...	"
मुखद्वीपकादिकी चिकित्सा	"	केतक्यादि तैल ..	६९७	क्षुद्ररोगीकी सामान्य चि०	"
मुखपर लेप करनेकी मात्रा- और लेप करनेकी विधि	"	नीलाविन्दु तैल ...	"	मुखरोगाधिकार ।	७०५
हरिद्राद्य तैल ...	६८८	काश्मर्याद्य तैल ...	"	मुखरोगोंका निदान ...	७०६
मजिष्ठाद्य तैल ...	"	केशरञ्जन तैल ...	६९८	वातिकओष्ठरोगके लक्षण...	"
कनक तैल ...	६८९	केतवयाद्य तैल ...	"	पैत्तिकओष्ठरोगके लक्षण...	"
कुंकुमाद्य तैल ...	"	मयूरत्रिचाद्य तैल ..	"	श्लैष्मिक ओष्ठरोगके लक्षण	"
पाद्मिनीकण्टकके लक्षण ...	"	मधूक तैल ...	"	सन्निपातिकके लक्षण ...	"
पाद्मिनीकण्टककी चिकित्सा	"	प्रपौण्डरीकाद्य तैल ...	६९९	रक्तज ओष्ठरोगके लक्षण...	"
पाददारीके लक्षण ...	"	अग्निरोहिणीके लक्षण ..	"	मांसजानित ओष्ठरोगके लक्षण	"
पाददारीकी चिकित्सा ...	"	अग्निरोहिणीकी चिकित्सा	"	भेदज ओष्ठरोगके लक्षण...	"
उपोदिकाद्य तैल ...	६९०	वल्मीकका निदान तथा लक्षण	"	अभिघातजके लक्षण ...	७०७
उन्मत्त तैल ...	"	वल्मीककी चिकित्सा ...	"	मुखरोगकी चिकित्सा ...	"
		मनःशिलाद्य तैल ...	७००	साम मुखरोगके लक्षण	७०८

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
दंतवेष्टरोगनिदान ।	७०९	जिह्वारोगनिदान ।	७१८	मांसतानके लक्षण ...	७२४
दंतवेष्टरोगीकी संख्या और नाम ...	७०९	वातज जिह्वारोगके लक्षण	७१८	विदारिके लक्षण ...	"
शीतादके लक्षण ...	"	पित्तज जिह्वारोगके लक्षण...	"	गलरोगीकी चिकित्सा...	"
दन्तपुष्पुटके लक्षण ...	"	कफज जिह्वारोगके लक्षण...	"	सितादि घृत ...	७२५
दन्तवेष्टके लक्षण ...	"	अलासके लक्षण ...	"	कालक चूर्ण ...	७२६
शौपिरके लक्षण ...	"	उपजिह्वाके लक्षण ...	"	पीतक चूर्ण ...	"
महाशौपिरके लक्षण ...	"	जिह्वारोगकी चिकित्सा ...	७१९	यवक्षारादि गुटिका ...	"
परिदरके लक्षण ...	"	तालुरोगनिदान ।	७१९	क्षार गुटिका ...	"
उपकुशके लक्षण ...	७१०	तालुगत शुण्डी रोगके लक्षण	७१९	सर्वमुखगत रोगका निदान ।	७२६
वैदर्भके लक्षण ...	"	तुंडिकेरीके लक्षण ...	७२०	वातजमुखपाकके लक्षण	७२६
खल्लिवर्द्धनके लक्षण ...	"	अभूपके लक्षण ...	"	पित्तजमुखपाकके लक्षण	"
करालके लक्षण ...	"	कच्छपके लक्षण ...	"	कफजमुखपाकके लक्षण	"
अधिमांसके लक्षण ...	"	ताल्वर्द्धके लक्षण ...	"	सर्वमुखगत रोगीकी चिकित्सा	७२७
पांचप्रकारकी दन्तनाडियोंके लक्षण ...	"	मांससंघातके लक्षण ...	"	सैहिक धूम ...	"
दन्तरोगका निदान ...	"	तालुपुष्पुटके लक्षण ...	"	सर्वसरोपक्रम ...	"
कृमिदन्तके लक्षण ...	"	तालुशोपके लक्षण ...	"	यष्टीतैल ...	७२८
भंजनेके लक्षण ...	"	तालुपाकके लक्षण ...	"	मुखरोगोंमें असाध्य रोग	७२९
दन्तहर्षके लक्षण ...	७११	तालुरोगकी चिकित्सा ...	"	मुखगत समस्त असाध्य रोग	"
दन्तविद्राधिके लक्षण ..	"	गलरोगका निदान ।	७२१	कर्णरोगाधिकार ।	७२९
दन्तशर्कराके लक्षण ..	"	रोहिणीके लक्षण ..	७२१	कर्णरोगका निदान ...	७२९
कपालिकाके लक्षण ...	"	वातजाके लक्षण...	७२२	कर्णनादके लक्षण ...	"
श्यावदन्तके लक्षण ...	"	पित्तजाके लक्षण...	"	वाधिर्यके लक्षण ...	"
हनुमोक्षके लक्षण...	"	कफजाके लक्षण...	"	कर्णद्वेडके लक्षण ...	"
दन्तरोगकी चिकित्सा ...	"	त्रिदोषजाके लक्षण ...	"	कर्णस्त्रावके लक्षण ...	७३०
भद्रमुस्तादि वटिका ...	७१२	रक्तजाके लक्षण ...	"	कर्णकण्डूके लक्षण ...	"
दन्तोपक्रमः ...	७१४	रोहिणीकी मारनेकी अवाधि	"	कर्णगूथके लक्षण ...	"
विदार्यादि तैल ...	७१५	कण्ठशालूकके लक्षण ...	"	कर्णप्रतिनाहके लक्षण ...	"
बकुलाद्य तैल...	७१६	अधिजिह्वके लक्षण ...	"	कृमिकर्णके लक्षण ...	"
सहचराद्य तैल ...	"	बलयके लक्षण ...	७२३	कानमें पतंगादे कृमि घुसनेके लक्षण ...	"
हरिद्राद्य तैल...	"	बलासके लक्षण ...	"	द्विविध कर्णविद्राधिके लक्षण	"
लाक्षाद्य तैल ...	"	एकवृन्दके लक्षण ...	"	कर्णपाकके लक्षण ...	"
इरिमेदाद्य तैल ...	७१७	वृन्दके लक्षण ...	"	पूतिकर्णके लक्षण ...	"
स्वरूपखादिरवाटिका ...	"	शतपत्रीके लक्षण ...	"	कर्णशोथादिकोंके लक्षण ...	७३१
महाखादिरवाटिका ...	"	गिलायुके लक्षण ...	"	वातज कर्णरोगके लक्षण...	"
पथ्यापथ्य ...	७१८	गलविद्राधिके लक्षण ...	"	पित्तज कर्णरोगके लक्षण ...	"
		गलौघके लक्षण ...	"	कफज कर्णरोगके लक्षण...	"
		स्वरन्नके लक्षण ...	७२४		

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.	विषय	पृष्ठ.
सन्निपातज कर्णरोगके लक्षण	७३१	पूतितनयके लक्षण	... ७४१	धवाद्य तैल...	... ७५०
परिपोटकके लक्षण	...	नासापाकके लक्षण	...	बलाहयाद्य तैल	...
उत्पातके लक्षण	...	पूरक्तके लक्षण	...	रसाञ्जनाद्य तैल	...
उन्मन्थकके लक्षण	...	क्षवधुके लक्षण	...	मुस्तकादि तैल...	...
दुःखवर्द्धनके लक्षण	...	आगन्तुक क्षवधुके लक्षण...	...	क्षीरघृत...	... ७५१
परिलेहिके लक्षण	... ७३२	श्रेश्थुके लक्षण	...	गृहधूम तैल...	...
कर्णरोगोंकी चिकित्सा	...	दीप्तके लक्षण	...	शिग्रुतैल	...
दोषिका तैल	... ७३३	प्रतिनाहके लक्षण	... ७४२	करवीराद्य तैल	...
राम्ना गुग्गुलु	...	नासान्नावके लक्षण	...	व्योपाद्य तैल...	...
कर्णपूरणाविधि	... ७३४	अन्यमतसे नासान्नावके लक्षण	...	नेत्ररोगाधिकार ।	७५१
भात्रा लक्षण	...	नानापरिणोषके लक्षण	...	अभिष्यन्दके लक्षण	... ७५२
श्योनाक तैल	...	आमपीनसके लक्षण	...	वाताभिष्यन्दके लक्षण...	...
हिग्वादि तैल	...	पकपीनसके लक्षण	...	पित्ताभिष्यन्दके लक्षण...	...
देवदारवादि तैल	...	पीनसरोगकी चिकित्सा	...	कफाभिष्यन्दके लक्षण	...
पिप्पल्यादि तैल	...	पञ्चमूल्यादि चूर्ण...	...	रक्ताभिष्यन्दके लक्षण	...
एरण्डादि तैल	... ७३५	कट्फलादि चूर्ण	...	अभिष्यन्दसे अधिमन्थकी	... ७०
सूकरवसा	...	कटुत्रिकादि चूर्ण और गुटिका	... ७४३	दोषभेदसे कालमर्यादा	... ७५३
स्वर्जिकातैल	...	व्योपाद्यचूर्ण	...	आमयुक्त नेत्ररोगके लक्षण	...
मचूरनालाद्य तैल	... ७३६	व्याघ्री तैल	...	निरामके लक्षण	...
बिल्वतैल	...	त्रिकटुकाद्य तैल	...	सशोथ और शोधरहित नेत्र-	...
अपामार्ग तैल	...	शिग्रु तैल	...	पाकके लक्षण	...
क्षार तैल	...	राजरसायन	...	हताधिमन्थके लक्षण	...
मधुशुक्तके लक्षण	...	पिप्पली तैल	... ७४५	वातपर्ययके लक्षण	...
जम्बवाद्य तैल	... ७३७	शुण्ठी तैल और घृत	...	शुण्काक्षिपाकरोगके लक्षण	... ७५४
विषगर्भ तैल	...	प्रतिश्यायका निदान	... ७४६	अन्यतोवातके लक्षण	...
पंचवलकल तैल	... ७३८	चयादिकक्रमसे इसका दूसरा	...	अम्लाध्युपितके लक्षण...	...
चतुष्पर्ण तैल	...	निदान...	...	शिरोत्पातके लक्षण	...
चतुष्पल्लव तैल	...	प्रतिश्यायका पूर्वरूप	...	शिराहर्षके लक्षण	...
कुप्राद्य तैल	...	वातिक प्रतिश्यायके लक्षण	... ७४७	पांच रोगोंकी चिकित्सा	...
शम्बूक तैल	...	पैत्तिक प्रतिश्यायके लक्षण	...	वृक्षादन्याद्य घृत	... ७५९
गन्धकाद्य तैल	...	शैमिक प्रतिश्यायके लक्षण	...	वासकादि काथ	... ७६६
✓ कर्णपालीकी		त्रिदोषज प्रतिश्यायके ल०...	...	द्वितीयवासकादि काथ...	...
चिकित्सा ।	७३९	दुष्टप्रतिश्यायके लक्षण	...	त्रिफला अथवा पथ्यादिकाथ	... ७६७
शतावरी तैल	... ७४०	रुधिरजन्य प्रतिश्यायके लक्षण	...	कृष्णगतरोगनिदान ।	७६७
जीवनीय तैल	...	असाध्य लक्षण...	...	सत्रणरोगके लक्षण	... ७६७
✓ नासारोगा-		नासिकागतअन्यान्यरोग...	...	सत्रणशुक्रके साध्यासाध्य लक्षण,	...
धिकार ।	७४०	वृद्धिको प्राप्त हुआ प्रतिश्याय	... ७४८	अत्रणशुक्रके लक्षण	...
नासारोगका निदान और		नासिकागतअर्श और अर्घुदके ल०,	...	अत्रणशुक्रकी अवस्थाभेदसे	...
पीनसके लक्षण	... ७४०	प्रतिश्यायकी चिकित्सा	...	असाध्यता	...

विषय	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ	विषय.	पृष्ठ.
अन्नगशुक्रका अवस्थादोषसे		धूमदाष्टिके लक्षण ...	७७८	विभीतकाद्य तैल ...	७९४
असाध्यता ...	७६७	ह्रस्वजात्यके लक्षण ...	"	त्रिफलाद्य तैल ...	"
अक्षिपाकात्ययके लक्षण	७६८	नकुलान्ध्यके लक्षण ...	"	गोमयतैल ...	"
अजकाजातेके लक्षण ...	"	गम्भीरदाष्टिके लक्षण ...	"	भृंगराजतैल ...	"
अन्यमतसे अजकाके लक्षण	"	आगन्तुज लिगनाशके लक्षण	"	द्वितीय भृंगराजतैल ...	"
अन्यच्च ...	"	अनिमित्त लिगनाशके लक्षण	"	अजिततैल ...	"
अजकाजातकी साध्यासाध्यता	"	साम्यासाध्य ...	७७९	नीलोत्पलाद्य तैल ...	७९५
कृष्णगतरोगकी चिकित्सा	"	दृष्टिगतरोगकी चिकित्सा	"	नृपवल्लभतैल ...	"
लामञ्जकाद्यञ्जन ...	७७०	नेत्ररोगमें पथ्य ...	"	महापिप्पल्याद्य तैल ...	"
दन्तवार्ति ...	७७१	नेत्ररोगमें अपथ्य ...	"	अथ कृष्णगतकी चिकित्सा	७९६
चूर्णाञ्जन ...	७७२	रास्नादि घृत ...	७८०	मरिचादि चूर्णाञ्जन ...	"
पटोलाद्य घृत ...	७७३	पित्ततिमिरकी चिकित्सा	"	मेपशृंगाद्यञ्जन ...	"
द्राक्षाद्य घृत ...	"	कफतिमिरकी चिकित्सा	"	मनःशिलाद्यञ्जन ...	"
कृष्णाद्य तैल ...	"	भास्करवार्ति ...	७८३	वचादि काथ ...	७९७
वृहच्छलाकाद्य घृत ...	७७४	अन्धसुदर्शक अञ्जन ...	"	अथ नक्तान्धकी चिकित्सा	"
दृष्टिगतरोगका		सुखावती वार्ति ...	७८४	अथ दृष्टिरोगकी चिकित्सा	७९८
निदान ।	७७४	मुक्तादि महाञ्जन ...	"	अथ शुक्लगतरोगका निदान	"
दूसरे पटलगत दोषोका		चन्द्रोदयादि वार्ति ...	"	प्रस्तार्यर्मके लक्षण ...	"
स्वभाव ...	७७४	हरितक्यादि वार्ति ...	७८५	शुक्लार्मके लक्षण ...	"
तृतीयपटलगतदोषोके लक्षण	७७५	त्रिफलादि वार्ति ...	"	रक्तार्मके लक्षण ...	"
चतुर्थपटलगततिमिरके लक्षण	"	शङ्खादि वटी ...	"	अधिमांसार्मके लक्षण ...	"
दोषविशेषके द्वारा रूपोका		कुसुमिका वार्ति ...	"	स्नाय्वर्मके लक्षण ..	"
दीखना ...	"	चन्दनादि वार्ति ..	७८६	शुक्तिरोगके लक्षण ...	७९९
पित्तजलिगनाशके लक्षण	७७६	व्योपादि वार्ति ...	"	अर्जुनके लक्षण ...	"
कफजलिगनाशके लक्षण	"	तमार्जुनाञ्जन ..	"	पिट्टकके लक्षण ...	"
रक्तजलिगनाशके लक्षण	"	शशचर्मगर्म मपी ...	"	शिराजालके लक्षण ...	"
परिम्लाथिसंज्ञक लिगनाशके		शतावर्यादि चूर्णाञ्जन .	"	शिराजपिडिकाके लक्षण	"
लक्षण ...	"	नयनामृताञ्जन ...	७८७	मलासके लक्षण .	"
वातादिजन्यनेत्रके वर्णानुसार	"	मनःशिलादि अञ्जन ...	"	शुक्लगतरोगकी चिकित्सा	"
लिगनाशके छः प्रकार	"	शशिक शलाका ...	७८९		
परिम्लाथि मण्डलके लक्षण	"	नेत्रनिर्माणप्रकार ।	७८९	सन्धिजरोगका	
वातादि कारणभूतसे उत्पन्न	"	फलात्रिकाद्य घृत ...	७९१	निदान ।	८००
नेत्रमण्डलके रूपाविशेष	७७७	मध्यमत्रिफलाद्य घृत ...	"	उपनाहके लक्षण ...	८००
दृष्टिरोगोंक नाम तथा संख्या	"	महात्रिफलाद्यघृत ...	"	स्त्राव अथला नेत्रनाडीके लक्षण	
पित्तवद्विग्धदृष्टि एवं दिवान्धके	"	द्वितीय महात्रिफलाद्य घृत	७९२	पर्वणी तथा अलर्जाके लक्षण	८०१
लक्षण ...	"	भास्कराद्य घृत ..	७९३	कृमिजन्यिके लक्षण ...	"
कफविदग्धदृष्टि और नक्तान्धके		महापटोलाद्य घृत ..	"	सन्धिजरोगकी चिकित्सा	"
लक्षण ...	"	रास्नाद्य घृत ...	७९४		

विषय.	पृष्ठ	विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ
वर्त्मजरोगका निदान ।	८०२	श्लैष्मिक शिरोरोगके लक्षण	८०९	वातजन्यप्रदरके लक्षण...	८०३
उत्संगिनीके लक्षण ...	८०२	त्रिदोषजाशिरोरोगके लक्षण	"	त्रिदोषजप्रदरके लक्षण...	"
कुम्भिकाके लक्षण ...	"	रक्तजशिरोरोगके लक्षण ...	८१०	असाध्यप्रदरोगवाली स्त्रीकी	
पोथकीके लक्षण ...	"	रसादि धातुक्षयजन्यशिरोरोगके लक्षण ...	"	त्याज्य चिकित्सा ...	"
वर्त्मशर्करके लक्षण ...	"	कृमिजशिरोरोगके लक्षण	"	चिकित्सानिवृत्तिके पश्चात्	
अर्गोवर्त्मके लक्षण ...	"	सूर्यावर्त्तके लक्षण ...	"	शुद्धार्तवके लक्षण ...	"
शुष्कार्शके लक्षण ...	"	अनन्तवातके लक्षण ...	"	स्त्रीरोगकी चिकित्सा ...	८२४
अंजननामिकाके लक्षण ...	"	अर्द्धावभेदके निदान और लक्षण ...	"	पुण्यानुग चूर्ण ...	८२७
बहलवर्त्मके लक्षण ...	८०३	अर्द्धावभेदके निदान और लक्षण ...	"	अशोक घृत ...	"
वर्त्मवन्धके लक्षण ...	"	अर्द्धावभेदके निदान और लक्षण ...	"	शीतकल्याण घृत ...	८२८
क्लिष्टवर्त्मके लक्षण ...	"	अर्द्धावभेदके निदान और लक्षण ...	"	शतावरी घृत ...	"
वर्त्मकर्मके लक्षण ...	"	अर्द्धावभेदके निदान और लक्षण ...	"	सुद्वघृत ...	८२९
श्याववर्त्मके लक्षण ...	"	अर्द्धावभेदके निदान और लक्षण ...	"	शालमलघृत ...	"
प्रक्लिन्नवर्त्मके लक्षण ...	"	अर्द्धावभेदके निदान और लक्षण ...	"	काश्मरीघृत ...	"
अक्लिन्नवर्त्मके लक्षण ...	"	अर्द्धावभेदके निदान और लक्षण ...	"	सोमरोगका निदान ...	"
वातहतवर्त्मके लक्षण ...	"	अर्द्धावभेदके निदान और लक्षण ...	"	सोमरोगके लक्षण ...	"
वर्त्माविदके लक्षण ...	"	अर्द्धावभेदके निदान और लक्षण ...	"	सोमरोगकी चिकित्सा ...	८३०
निमेषके लक्षण ...	८०४	अर्द्धावभेदके निदान और लक्षण ...	"	मूत्रातिसारके लक्षण ...	"
शोणितार्शके लक्षण ...	"	अर्द्धावभेदके निदान और लक्षण ...	"	स्त्रियोंके विद्वेषकी चिकित्सा	"
लगणके लक्षण ...	"	अर्द्धावभेदके निदान और लक्षण ...	"	योनिरोगका निदान।	८३१
विसवर्त्मके लक्षण ...	"	अर्द्धावभेदके निदान और लक्षण ...	"	योनिरोगकी चिकित्सा...	८३३
कुञ्चनके लक्षण ...	"	अर्द्धावभेदके निदान और लक्षण ...	"	गुडूच्यादि घृत ...	"
पक्ष्मकोपके लक्षण ...	"	अर्द्धावभेदके निदान और लक्षण ...	"	गुडूच्यादि तैल ...	८३४
पक्ष्मशातके लक्षण ...	"	अर्द्धावभेदके निदान और लक्षण ...	"	नताद्य तैल ...	"
वर्त्मजरोगकी चिकित्सा ...	"	अर्द्धावभेदके निदान और लक्षण ...	"	अथ गर्भप्रदयोग ...	८३५
✓ पिल्लरोगका निदान ।	८०५	अर्द्धावभेदके निदान और लक्षण ...	"	लक्ष्मणाद्य घृत ...	"
पिल्लरोगकी चिकित्सा: ...	८०६	अर्द्धावभेदके निदान और लक्षण ...	"	फल घृत ...	"
अथोपपक्ष्मके लक्षण ...	८०७	अर्द्धावभेदके निदान और लक्षण ...	"	गर्भोत्पादनविधि ...	"
उपपक्ष्मकी चिकित्सा ...	"	अर्द्धावभेदके निदान और लक्षण ...	"	वृहत्कल्याणघृत ...	८३७
अथ सशल्य नेत्र लक्षण ...	८०८	अर्द्धावभेदके निदान और लक्षण ...	"	वृहत्फल घृत ...	८३८
सशल्य नेत्रकी चिकित्सा ...	"	अर्द्धावभेदके निदान और लक्षण ...	"	शतावरी घृत ...	"
✓ शिरोरोगाधिकार ।	८०९	अर्द्धावभेदके निदान और लक्षण ...	"	वृद्धदारुक घृत ...	८३९
शिरोरोगका निदान ...	८०९	अर्द्धावभेदके निदान और लक्षण ...	"	अथ संजातगर्भके लक्षण	"
वातज शिरोरोगके लक्षण ...	"	अर्द्धावभेदके निदान और लक्षण ...	"	नागोदरके लक्षण ...	"
पित्तजशिरोरोगके लक्षण...	"	अर्द्धावभेदके निदान और लक्षण ...	"	गर्भस्त्राव और गर्भपातके	
		अर्द्धावभेदके निदान और लक्षण ...	"	अवधिपूर्वक लक्षण	"
		अर्द्धावभेदके निदान और लक्षण ...	"	गर्भस्त्राव और गर्भपातको	
		अर्द्धावभेदके निदान और लक्षण ...	"	चिकित्सा ...	"


विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
अकालपातमें निदानपूर्वक		करवीराद्य तैल ...	८५८	रास्नाद्य घृत ...	७५
दृष्टान्त ...	८३९	कर्पूराद्य तैल ...	"	गौर्याद्य घृत ...	"
✓ मूढगर्भके लक्षण ...	८४०	योनिकंदनिदान । ८५८		लाक्षाद्य घृत ...	"
मूढगर्भकी आठप्रकारकी गति ,,		वातादिभेदसे रूप ...	८५९	चांगेरी घृत ...	"
असाध्य मूढगर्भ और गर्भिणीके लक्षण ...	"	योनिकन्दकी चिकित्सा ..	"	पाठाद्य घृत ...	"
मृतगर्भके लक्षण ...	"	✓ बालरोगाधिकार । ८६०		सोमघृत ...	८७६
गर्भमरण हेतु ...	"	बालरोगका निदान ...	८६०	अष्टमङ्गल घृत ...	८७७
असाध्य लक्षण ...	"	वातदूषित दूधके लक्षण ...	"	कुमारकल्याण घृत ...	"
प्रीतमासगर्भिणीकीचिकित्सा ८४२		पित्तदूषित दूधके लक्षण ...	"	खदिराद्य घृत ...	"
गर्भिणीके ज्वरकीचिकित्सा ८४४		कफदूषित दूधके लक्षण ..	"	अवस्थाविशेषसे बालकोंको घृतपान ...	"
गर्भिणी प्रसव विलम्बकी चिकित्सा ...	८४५	बालकोंकी अन्तर्गत पीडा जाननेका उपाय ...	८६१	सिद्धार्थकादि घृत ...	"
अथ मकल्लशूलका निदान ८४८		बालरोगोंकी चिकित्सा ...	"	मधुकपान ...	"
मकल्लशूलकी चिकित्सा ..	"	फलङ्कपादि धूप ...	"	द्विपंचमूलाद्य घृत ...	८७८
सूतकारोगके लक्षण ...	"	सर्पत्वगादि धूप ...	"	वचाद्य घृत ...	"
सूतिका रोगका निदान ...	"	विसर्पमहापद्मरोगके लक्षण ८६७		श्यामाद्य घृत ...	"
अथ सूतकारोगोंकी चि० ८४९		उसकी चिकित्सा ...	"	नागराद्य घृत ...	"
प्रतापलङ्केश्वर रस ...	८५२	कुकूणकके लक्षण ...	८६८	क्षीरद्वयाद्य घृत ...	"
यवादि यूष ...	"	कुकूणककी चिकित्सा ...		विभोतकाद्य तैल ...	"
द्वितीय यवादि यूष ...	"	पारिगर्भिकका निदान । ८६९		लाक्षाद्य तैल ...	"
पिप्पल्यादि यूष ...	"	पारिगर्भिककी चिकित्सा ८७०		बालग्रह निदान ...	"
तृतीययवादि यूष ...	८५३	तालुकण्ठरोगका निदान ..	"	सामान्यग्रहसितके लक्षण ..	"
पिप्पल्यादि काथ ...	"	तालुपाक रोगकी चिकित्सा ..	"	बालग्रहकी चिकित्सा ...	८७९
पिप्पल्याद्य घृत ...	"	व्रणपश्चात्तरोगके लक्षण ८७१		स्कन्दग्रहजुष्टके लक्षण । ८७९	
भद्रोत्कटाद्य घृत ...	८५४	व्रणपश्चात्तकी चिकित्सा ...	"	स्कन्दग्रहजुष्टकी चिकित्सा ८७९	
पञ्चजीरक गुड़ ...	"	शय्यामूत्र चिकित्सा ...	८७२	रक्षाविधि ...	८८०
✓ अथ स्तनरोगका निदान ..	"	उपशीर्षरोगका निदान । ८७२		स्कन्दापस्मारग्रहजुष्टनिदान ८८१	
स्तनरोगकी चिकित्सा ...	८५५	उपशीर्षरोगकी चिकित्सा ..	"	तस्य चिकित्सा ...	"
✓ अथ स्तन्यरोगका निदान ..	"	दन्तरोगका निदान ...	८७३	सुरसादि गण ...	"
✓ शुद्ध दुग्धके लक्षण ...	८५६	दन्तरोगकी चिकित्सा ...	"	अष्टमूत्र तैल ...	"
✓ स्तन्यरोगकी चिकित्सा ...	"	अथ प्रायश्चित्त ...	८७४	काकोल्यादि घृत ...	"
अन्यान्य लक्षण ...	"	दन्तदंष्ट्रके लक्षण ...	"	शकुनिग्रहका निदान ...	८८२
तस्य चिकित्सा ...	"	दन्तदंष्ट्रकी चिकित्सा ...	"	शकुनिग्रहकी चिकित्सा ..	"
वज्रकाञ्जिक ...	८५७	अन्यरोग ...	"	रेवतीग्रहका निदान ...	८८३
पत्रकाञ्जिक ...	"	अश्वगन्धाद्य घृत ...	८७५	रेवतीग्रहकी चिकित्सा ...	"
अलम्बुपाद्य तैल ...	"			पूतनाग्रहजुष्टके लक्षण ...	८८४
श्रीपर्णातिल ...	८५८			पूतनाग्रहजुष्टकी चिकित्सा ..	"
कासासाद्य तैल ...	"			अन्धपूतनाग्रह निदान ...	"

विषय,	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.	विषय	पृष्ठ.
अन्धपूतनाग्रहकी चिकित्सा	८८५	गरविष	८९५	गरविष ...	९०५
शीतपूतनाग्रहके लक्षण ...	८८६	लूताविषकी उत्पत्ति और निरुक्ति	८९६	त्रपाद्य घृत ...	९०६
शीतपूतनाग्रहकी चिकित्सा	"	आखुदूपीविषके लक्षण	"	लूताविषकी चिकित्सा ...	"
मुखमण्डिकाका निदान ...	"	असाध्य मूसेके लक्षण	"	मूषकविषकी चिकित्सा ...	९०७
मुखमण्डिकाकी चिकित्सा	८८७	कृकलासदृष्टके लक्षण	"	अलर्कविषकी चिकित्सा	"
नेगमेपग्रहका निदान ...	"	वृश्चिकदृष्टके लक्षण	८९७	वृश्चिकविषकी चिकित्सा	९०८
नेगमेपग्रहकी चिकित्सा ...	"	असाध्यवृश्चिकदृष्टके लक्षण	"	नखदन्तजाविषकी चिकित्सा	९०९
अन्यग्रहसितके लक्षण ...	८८८	कणभदृष्टके लक्षण	"	खजुरविषकी चिकित्सा	"
ग्रहवाधाकी चिकित्सा	"	रुचिर्दिगदृष्टके लक्षण	"	जलौकाविषकी चिकित्सा	९१०
✓ विषरोगाधिकार ।	८८९	मण्डूकदृष्टके लक्षण	"	कीटविषकी चिकित्सा ...	"
वैद्यके गुण	८८९	मत्स्यविषके लक्षण	"	पिपीलिकादिविषकी चिकित्सा	"
पाकशालाका विधान	८९०	जलौकाविषके लक्षण	"	असाध्य लक्षण	९११
विषके लक्षण	"	ग्रहगोधिकारके लक्षण	"	पथ्य	९१२
विष देनेवालेके लक्षण	"	शतपदीविषके लक्षण	"	जलदोषादियोगा- धिकार । ९१२	
विषयुक्त अन्नकी परीक्षाका प्रकार	८९१	मशकविषके लक्षण	"		
विषरोगकी चिकित्सा	"	असाध्य मशकदंशके लक्षण	८९८	रसायनाधिकार । ९१४	
स्थावरविषके सामान्य कार्य	"	मक्षिकादंशके लक्षण	"		
क्षारविषके कार्य	८९२	चतुष्पादादिकोंके विषके साधारण लक्षण	"	मधुशुक्त	९१४
धातुविषके कार्य	"	विष उतरे हुए मनुष्यके लक्षण चिकित्सा	"	गुडतक्र	९१५
विपलिप्तगन्धहृत्के लक्षण	"	दोषविशेषसे विषभेदके लक्षण चिकित्सा	८९९	पिप्पल्यादि पद घृत	"
विषपानके लक्षण	"	जंगमाविषकी चिकित्सा	९००	पालिवर्धन चतुःस्नेह	"
जंगम विषके लक्षण	"	अरिष्टबन्धन	"	शिवगुटिका	"
सर्पविषके लक्षण	"	आचूपणच्छेद दाहादिक्रिया	"	गुग्गुलुरसायन	९१७
विषके दश गुण	८९३	तार्क्ष्य अगद	९०२	गन्धककल्प	"
विषरोगकी सामान्य चिकित्सा	"	महागद	"	गन्धकरसायन	"
सर्पदंशको असाध्यत्व	"	दशाङ्गधूप	"	गन्धकद्रुति	९१८
दूषीविषके लक्षण	८९४	चन्द्रोदयोऽगद	९०४	गन्धकयोग	"
दूषीविषके कार्य	"	सूर्योदयोऽगद	"	गन्धककल्प	"
अस्थानविषसे उत्पन्न दूषी-विषके लक्षण	"	अमृतघृत	"	ताम्र रसायन	९१९
दूषीविषके प्रकोपका समय	८९५	नागदन्त्याद्य घृत	"	द्वितीय ताम्ररसायन	९२०
प्रकुपितदूषीविषके पूर्वरूप	"	तण्डुलीयघृत	"	पञ्चामृतरस	९२२
प्रकुपित दूषीविषके रूप	"	अजेयघृत	"	ताम्रक	९२३
दूषीविषके भेदोंसे विकार भेद	"	मृत्युपाशापह घृत	९०५	द्वितीय ताम्रक	"
दूषीविषशब्दकी निरुक्ति	"	दूषीविषकी चिकित्सा	"	ताम्रामृतरसायन	"
दूषीविष साध्य, याग्य और असाध्य	"			पर्पटाल्य रसायन	९२४
				गन्धकरसायन	"
				अभ्रककल्प	९२५
				महाबल विधानाभ्रक	९२६
				अभ्रक	९२८

विषय.	पृष्ठ	विषय.	पृष्ठ	विषय.	पृष्ठ.
उमाभाषितअभ्रक ...	९२०	मांसमर्म्भ	९४४	दूधिन आर्जवर्धो चिकित्सा	९६१
तृतीय अभ्रक ...	"	शिरामर्म्भ	...	वाजीकरण प्रयोग	९६२
पानीय भक्तवटी	९३०	स्नायुमर्म्भ	...	पुषालिका	९६३
द्वितीय पानीय भक्तवटी...	"	आस्थिमर्म्भ	...	रमात्वा	...
तृतीय पानीय भक्तवटी...	"	सन्धिमर्म्भ	...	बृहदश्वगन्वादि घृत	...
चतुर्थ पानीय भक्तवटी ...	९३१	मर्मोक्ते पांच विकल्प	...	अश्वगन्वादि घृत	९६४
पञ्चम पानीयभक्तवटी	"	सद्यःप्राणनाशक मर्म्भ	...	शतावरीघृत	९६५
अभ्रक-संधान ...	"	कालान्तर प्राणहारक मर्म्भ	...	वाजीकरणविधान	...
षष्ठी पानीयभक्तवटी...	९३२	विशल्यत्र मर्म्भ	९४५	नपुंसकत्व कथन	...
लोहरसायन ।	९३३	वैकल्यकर मर्म्भ	...	शतावरीघृत	९६८
सूर्यमयूखसे लोह मारण...	९३३	मर्म्भाघातसे मृत्युका कारण	९४६	मापघृत	...
सूर्यमयूखके द्वारा अभ्रक मारण...	"	वातजरांगगणना	...	गोधूमाद्य घृत	...
सप्तम पानीय भक्तवटिका...	९३४	पित्तजनितरोगगणना	९४७	जीन्वतीयमक	९६९
सर्वतोभद्रलोह	"	कफके वीस रोग	...	गुडकूपमाण्ड	९७०
वातश्रेष्ठप्रकृतिवाले रोगीके	"	रसायनविधि	९४८	वीर्यश्रयंक कारण और लक्षण	९७१
लिये रसायन	९३६	शृंगराजरसायन	९४९	स्नेहपानाधिकार ।	९७१
कफपित्तप्रकृतिवाले रोगियोंके	"	जलपान	९५२	स्नेहपानका निषेध	९७४
लिये रसायन	९३७	मधुहरोतकी	९५३	अस्निग्धगात्रके लक्षण	...
आमवातादिरोगोंपर दिव्य र०	"	लोहगुग्गुलु	...	स्निग्धके लक्षण	९७५
श्वासादिव्याधियोंपर रसायन	९३८	नारसिंह-चूर्ण	९५४	अतिस्निग्धके लक्षण	...
वातरक्तादिरोगोंपर रसायन	"	अश्वगन्वाद्य चूर्ण	...	स्नेहपानका फल	...
प्लीहादिरोगोंपर रसायन	"	घृद्धदारु कल्प	...	स्वदाधिकार ।	९७५
राजयक्ष्मापर रसायन	९३९	ज्योतिष्मतीतैलपानविधि	९५६	अच्छे प्रकारसे स्वेदित किये	...
वातजग्रहणरोगपर रसायन	"	लोहरसायन	...	हुणके लक्षण	९७७
पित्तजग्रहणीपर रसायन...	"	दासरसायन	९५७	अत्यन्त स्विन्नके लक्षण	...
कफजग्रहणीपर रसायन ...	"	नागार्जुन लोह	...	वमनाधिकार ।	९७८
वातपैतिकग्रहणीपर रसायन	९४०	स्थालीपाकाविधि	९५९	पथ्यापथ्य	९८१
वातकफजग्रहणीपर रसायन	"	सारस्वत घृत	...	विरेचनाधिकार ।	९८२
पित्तकफजग्रहणीपर रसायन	"	गुडूच्यादि घृत	...	अभयाद्य मोदक	९८५
लोहाभ्रक	९४१	चतुष्कुवलय घृत	९६०	माणभद्र मोदक	...
खर्पराख्य रसायन	...	द्वितीय सारस्वतघृत	...	गुडाद्य मोदक	९८६
शिरोवास्तिप्रकार	९४२	अष्टांगसंगल घृत	...	पथ्यापथ्य	९८८
मर्म्भनिर्देश	९४३	पथ्यापथ्य	...	वास्तिकर्म्माधिकार ।	९८८
सक्थिमर्म्भ	...	रसायनका विशेष कल	९६१	वास्तियन्त्र निर्माण विधि	९८९
उदर और, उरोगतमर्म्भ	...	वाजीकारणा-		गुडूची तैल	९९७
पृष्ठमर्म्भ	...	धिकार ।	९६१	जीवंत्याद्य थमक	...
वाह्रमर्म्भ	...	दूषित शुक्रके लक्षण	९६१	निरूहण विधि	९९८
जत्र-मर्म्भ	...	वाजीकरण चिकित्सा	...		

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
अन्यत्र	... ९९९	कवलाधिकार ।	१०१५	क्षीरवर्ग	... १०७२
द्वादशप्रसृत	... १००२	कवलशुद्धिके लक्षण	... १०१६	दधिवर्ग	... १०७३
पिच्छिल वस्ति	... १००३	अशुद्ध कवलके लक्षण	... ,,	तक्रवर्ग	... १०७४
उत्क्लेशन वस्ति	... ,,	नस्याधिकार ।	१०१६	नवनीत और घृत वर्ग	... ,,
दोपहर वस्ति	... ,,	शुद्ध नस्यके लक्षण	... १०१९	तैलवर्ग	... १०७५
शमन वस्ति	... ,,	अन्यत्र	... ,,	मधुवर्ग	... ,,
शोधन वस्ति	... ,,	हीन शुद्धिके लक्षण	... ,,	इक्षुवर्ग	... १०७६
लेखन वस्ति	... ,,	अतिशुद्धिके लक्षण	... ,,	मद्यवर्ग	... ,,
बृंहण वस्ति	... १००४	स्वस्थवृत्ताधिकार ।	१०२१	मूत्रवर्ग	... १०७७
मधुतैलिक वस्ति	... ,,	द्रव्यगुणाधिकार ।	१०२७	अरिष्टाधिकार ।	१०७८
यापन वस्ति	... १००५	प्रतिनिधि	... १०३३	दूतलक्षण	... १०७८
शुद्ध वस्ति	... ,,	गणपाठाधिकार ।	१०३६	दूत शुभके लक्षण	... १०८०
क्षीर वस्ति	... १००६	संशोधन संशमन-		शकुन लक्षण	... १०८१
मूत्र वस्ति	... ,,	रसद्रव्यादिकोंका		स्वप्नाधिकार	... १०८२
वैतरण वस्ति	... ,,	वर्गाधिकार ।	१०४१	कालज्ञान	... १०८५
अर्धमात्रिक निरूह	... ,,	ऋतुचर्याधिकार	.. १०४४	नेत्रपरीक्षा	... १०९४
एरण्डाद्य निरूह	... १००७	स्वस्थके लक्षण	... १०५०	आरोग्यदृष्टिके लक्षण	... १०९५
पथ्य	... १००८	धान्यवर्गाधिकार	... ,,	मुखपरीक्षा	... ,,
अधोत्तरवस्ति विधि	... ,,	मांसवर्गाधिकार	... १०५२	जिह्वापरीक्षा	... ,,
अपिच्य	... १०११	शाकफलवर्गाधिकार	.. १०५५	मूत्रपरीक्षा	... ,,
धूमपानाधिकार ।	१०११	व्यंजनमांसव्यंजनाधिकार	१०६१	अन्य प्रकारसे मूत्रकी परीक्षा	१०९६
धूमपानका निषेध	... १०१३	मत्स्यव्यंजनगुणाधिकार	... १०६७	दीपनपाचनद्रव्यलक्षणा-	
अन्यत्र	... ,,	द्रवद्रव्याधिकार ।	१०७०	धिकार ।	
धूमपानका काल	... १०१४	तोयवर्ग	... १०७०	वंगसेनोत्पत्ति	... ११००
				टीकाकारोक्त विज्ञप्ति वर्णन	११०१

इति भाषाटीकासह बङ्गसेनस्थविषयानुक्रमणिका समाप्ता ।



अथ भाषाटीकासहितो वङ्गसेनः प्रारभ्यते ।

मङ्गलाचरणम् ।

नत्वा शारदपादपद्मयुगलं मत्वाप्तवाचां चयं
गत्वा पारमशेषपूर्वभिषजां सङ्गन्धवारांनिधेः ।
श्रीमत्पण्डितवङ्गसेनरचितां तन्नामिकां संहितां
शालग्रामपदाभिधानकलितो व्याख्याति विद्वन्मुदे ॥ १ ॥

ग्रन्थारम्भः ।

ध्यात्वा गिरीशमपहाय वचःप्रपञ्चं
वृद्धानुपास्य भिषजस्तदुदाहृतीश्व ।
श्रीवङ्गसेनभिषजा खलु वैद्यवृद्धसिद्ध-
प्रयोगनिवहो बहु लिख्यतेऽस्मिन् ॥१॥

मैं श्रीवङ्गसेन वैद्य, प्रथम श्रीमहादेवजीका ध्यान कर और जम्बाडम्बरपूर्ण वचनोको छोडकर एवं वृद्ध वैद्योकी उपासना कर और उनकी उक्तियोंको विचार कर वृद्ध वैद्योके सिद्ध किये हुए प्रयोगोको इस ग्रन्थमे लिखता हूँ ॥ १ ॥

सज्जनप्रार्थना ।

नत्वा शिवं प्रथमतः प्रणिपत्य चण्डीं
वाग्देवतां तदनु तातपदं गुरुं च ।
संगृह्यते किमपि यत्सुजनैस्तदत्र चेतो
विधातुमुचितं तदनुग्रहेण ॥ २ ॥

प्रथम शिव, पार्वती और सरस्वती देवीको वन्दना कर पश्चात् पिता और गुरुके चरणकमलोको प्रणाम कर उनके अनुग्रहसे मे इस ग्रन्थमे जो कुछ संग्रह करता हूँ उसको सज्जन कृपा कर ध्यान देकर पढे ॥ २ ॥

दुर्जनप्रार्थना ।

हेतुर्जनैः परगुणेषु भवादृशानां द्वेषः
किमेष सहजो गुणितापहारी याच्ञापि

(१) 'तत हस्तं' इति पाठान्तरम् । (२) इत्यस्वार-
सिकः पाठ इति केचित् ।

दैन्यफलभूरिफला तदानीं तादृग्वि-
धस्य मिथुनस्य विमोचनाय ॥ ३ ॥

जब दूसरोके गुणोमे आप सरीखे मनुष्योंका हरनेवाला स्वाभाविक द्वेष है तब आपसे दीनताके ही महान् फलको प्राप्त करना इस प्रकारके मिथुन (द्वेष) और याच्ञाके लिये क्या यह जन अर्थात् ग्रन्थकार सफल हो सकता है अर्थात् नहीं हो सकता ॥ ३ ॥

कान्तिकावासनिर्जातश्रीगदाधरसू-
नुना । क्रियते वङ्गसेनेन चिकित्सा-
सारसंग्रहः ॥ ४ ॥

'कान्तिकावास' नगरमे उत्पन्न श्रीगदाधरका पुत्र म वङ्गसेन, इस चिकित्सासारसंग्रहको बनाता हूँ ॥ ४ ॥

हृदि तिष्ठति यस्यैष चिकित्सातत्त्व-
संग्रहः । सनिदानचिकित्सायां न
दरिद्रात्यसौ भिषक् ॥ ५ ॥

जिस वैद्यके हृदयमे यह चिकित्सातत्त्वसंग्रह स्थित रहता है वह वैद्य निदान और चिकित्साके विषयमे कदापि दरिद्रताको प्राप्त नहीं होता अर्थात् वह निदान सहित चिकित्साके जाननेमे निपुण हो जाता है, उसको किसी और शास्त्रकी निदान और चिकित्साके आवश्यकता नहीं रहती, यही पर्याप्त है ॥ ५ ॥

धर्मार्थकाममोक्षणामारोग्यं मूलमु-
त्तमम् । रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो
जीवितस्य च ॥ ६ ॥

धर्म, अ, काम और मोक्ष का उत्तम मूल (जड) आरोग्य है और रोग उसके, कल्याणके और जीवन के हरने वाले है ॥ ६ ॥

तेषां प्रशमनोपायमतिदुर्वारं हसम् ।
ब्रूमहे नातिविस्तीर्णं सिदानं
चिकित्सितम् ॥ ७ ॥

उन अत्यन्त दुर्निवार्य वेगवाले रोगोंके निदान और चिकित्सा सहित शमन करनेवाले उपायोको अनावश्यक विस्तार रहित पूर्ण रूपसे कहते है ॥७॥

निदानं पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशय-
स्तथा । सम्प्राप्तिश्चेति विज्ञानं रोगाणां
पञ्चधा स्मृतम् ॥ ८ ॥

निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय और सम्प्राप्ति यह रोग जाननेके पांच कारण है अर्थात् इनके द्वारा रोगका ज्ञान होता है ॥ ८ ॥

येनाहारविहारेण रोगाणामुद्भवो
भवेत् । क्षयो वृद्धिश्च दोषाणां
निदानं हि तदुच्यते ॥ ९ ॥

जिस आहार और विहार के द्वारा रोगोंकी उत्पत्ति तथा वातादि दोषोंका क्षय और वृद्धि होती है उसको निदान कहते है ॥ ९ ॥

निमित्तहेत्वायतनप्रत्ययोत्थानकारणेः ।
निदानमाहुः पर्यायैः प्राग्रूपं येन
लक्ष्यते ॥ १० ॥ उत्पित्सुरामयो
दोषविशेषणानधिष्ठितः । लिङ्गम-
व्यक्तमल्पत्वाद्ब्रयाधीनां तद्यथाय-
थम् ॥ ११ ॥ तदेव व्यक्ततां यातं
रूपमित्यभिधीयते । संस्थानं व्यञ्जनं
लिङ्गं लक्षणं चिह्नमाकृतिः ॥ १२ ॥

जिस लक्षणसे उत्पन्न होनेवाले रोगका ज्ञान हो उसको पूर्वरूप कहते है जैसे कि, ज्वरके पूर्वमें श्रम आदिका होना ज्वरका पूर्वरूप है ।

अब निदानके पर्याय वाचक शब्दोंको कहते है—
निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान और कारण ये निदानके पर्यायवाचक शब्द शास्त्र व्यवहारके अर्थ मुनीश्वरोंने कहे है । इनके कहनेका कारण यह है कि व्यवहारके लिये अर्थात् शास्त्रमें इन छोटे शब्दोंसे

कोई शब्द आवे तो उसको निदानवाचक ही जानें । जिस जम्भाई आदिसे उत्पन्न होनेवाली व्याधिका ज्ञान हो उनको पूर्वरूप कहते है । फिर वातव्याधि दोष (वात पित्त कफ) से बहुधा अप्रगट हो । अन्त-
यदि वातादिक दोषोंसे अप्रगट होगी तो व्याधिका प्रगट होना असम्भव है क्योंकि कारण तो वाता-
दिक दोष है । जब दोष ही नहीं तो रोग कैसे प्रगट हो सकेत है । उत्तर—इस पदका यह अर्थ है कि दोष (वात पित्त कफ) का व्याधिके अल्प होनेमें अप्रगट रूप होना अर्थात् थोडा २ होना, अतएव तत्तन् ज्वरादिव्याधिका अपने अपने अप्रगट लक्षण । पूर्वरूप वैसे वैसे ही होते है । अब कहते है कि पूर्वरूप दो प्रकारका है, एक सामान्य दूसरा विशिष्ट । सामान्यप्राग्रूप (पूर्वरूप) उसे कहते हैं जैसे दोष (वात पित्त कफ) से दूषित धातु उसके विगड़नेसे प्रगट होनेवाले ज्वरादि व्याधिमात्रहीकी प्रतीति हो और वात आदि दोषोंके चिह्न न मालूम हों जस “श्रमोऽरतिविवर्णत्वमिति” अर्थात् ज्वरमें श्रम हो, मनका न लगना, देहका विवर्ण इत्यादि लक्षण । और जिसमें होनहार रोगारम्भक दोष उनके चिह्न उसके एक अंशकी प्रतीति हो उसको विशिष्ट प्राग्रूप कहते है, जैसे “जंभात्यर्थ समीरणान्” अर्थात् जंभाईका आना केवल वातके दोषसे ही ह । इसमें होनहार रोग कौन ज्वर, उसका आरम्भक दोष कौन वात, उस वातका एक अंश कौन जंभाई, ऐस और भी जानने चाहिये । इस विशिष्ट पूर्वरूपमें जंभाई आदि रूप देखकर कदाचित् पूर्वरूपको रूप न समझना चाहिये । क्योंकि यह तो केवल व्याधिके आरम्भक दोषमात्रका सूक्ष्म चिह्न है । इस वातको दृष्टांत देकर समझाते है—दृष्टान्त । जैसे तृणके समूहको छोटी अग्निकी चिनगारी गिरनेसे घूम (धुआँ) मात्र प्रकट देखकर हाथ, वस्त्र आदिके मारनेसे ही शांति कर सकते है, परन्तु जब अग्नि एक साथ जोरसे प्रज्वलित हो गई तब शान्त नहीं होसके ऐसे ही विशिष्ट पूर्वरूपके अल्प होनेसे चिकित्सा करनेसे शांति कर सकते है, परन्तु जब रूप होगया तब उसका उपाय नहीं हो सकता है इसी से पूर्वरूप और रूपमें भेद है । अब कहते है पूर्वरूप और रूप इन दोनोंमें कोई शारीरिक अर्थात् शरीरसे सम्बन्ध रखते है और कोई मानसिक

अर्थात् मनसे सम्बन्ध रखते हैं । शारीरिक जैसे चरमे मुखका विरस होना, देह भारी, नेत्रोंसे जल गिरना इत्यादिक और मानसिक जैसे मनका एक जगह न लगना और अपने हितकारक वचनोंसे शान्ति न होना तथा खड़े चरपरे पदार्थ पर मन चलना । जब पूर्वोक्त प्राग्रूप प्रगट होजाय तब उसको रूप कहते हैं । और संस्थान, व्यञ्जन, लिंग, लक्षण, चिह्न और आकृति ये छ गन्ध रूपके पर्यायवाचक हैं ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥

उपशयः ।

हेतुव्याधिविपर्यस्तविपर्यस्तार्थकारि-
णाम् । औषधान्नविहाराणामुप-
योगं सुखावहम् ॥ १३ ॥ विद्यादु-
पशयं व्याधेः स हि सात्म्यमिति
स्मृतम् । विपरीतोऽनुपशयो व्याध्य-
सात्म्यमिति स्मृतः ॥ १४ ॥

अत्र उपशयके लक्षणका कहते हैं:-हेतुविपरीत, व्याधिविपरीत, हेतुव्याधिविपरीत, हेतुविपर्यस्ता-
र्थकारी, व्याधिविपर्यस्तार्थकारी, हेतुव्याधिवि-
पर्यस्तार्थकारी ऐसे जो औषध अन्न (पथ्य) विहार
(आचरण) इनका सेवन सुखकारक जानना
उसको व्याधिका उपशय कहते हैं । इसका तात्पर्य
यह है कि, रोगी और रोगका हेतु इनका सुखकारक
जो औषध पथ्य आचरणरूप प्रयोग उमका उपशय
कहते हैं और व्याधिगन्तव्य य पर्यायवाचक नाम उसी
उपशयके है । सुखकारकके कहनेसे यह प्रयोजन है
कि दाह और व्यासयुक्त नवीन चरमे शीतलजलका
पाना व्याधिका बढ़ानेवाला है इससे शीतल जल
सुखकर्ता न हुआ अतएव शीतल जलको उपशय न
समझना चाहिये परंतु दाहयुक्त व्यासमे शीतल जल
उपशय माना जायगा क्योंकि सुखकारक है ॥

(अब क्रमसे उदाहरण लिखते हैं ।)

हेतुविपरीत औषध-जैसे शीतकफचरमे सोठ, तो
इसमें प्रथम समझना चाहिये कि, यहां हेतु कौन है
कि, सर्दी उसका शीतल धर्म है तो अब शीत कफ
यह कब शान्त हो जब कि सर्दी और कफसे विपरीत
औषध मिले ऐसी औषध गुंठी सर्दी और कफ
दोनोंको शान्त करती है तो शीतकफचरमे हेतुवि-
परीत औषध सोठ हुई । ऐसे ही हेतुविपरीत अन्न

जैसे श्रम और वातसे प्रगट चरमे मांसका रस
और चावल । इसमें हेतु कौन श्रम और वात, ये कब
शान्त हो जब श्रम और वात-हरणकर्ता पथ्य
मिले, ऐसा पथ्य कौन है मांसरस और चावलोंका
भात, ये श्रम और वातके विपरीत है अर्थात् नाशक
है । ऐसे ही हेतुविपरीत विहार कहिये आचरण कौन
जैसे दिनके सोनेसे प्रकट कफपर रातमें जागना, यहां
हेतु कौन हुआ कि दिनका सोना, उससे प्रगट दोष
कौन कफ है, यह कफ कब शान्त हो जब जिस हेतुसे
प्रगट हुआ उस हेतुसे विपरीत आचरण किया जाय,
तो दिनके सोनेपर उलटा आचरण कौन है रातमें
जागना, तो यह हेतुविपरीत आचरण हुआ । इसी
प्रकार और उदाहरण व्याधिविपरीत आदिके
बुद्धिमान् मनुष्य स्वयम् समझ लेवे । जो उपशयके
लक्षण कहे हैं उससे विपरीत लक्षण अनु-
पशयके है और व्याधिका असात्म्य अर्थात् अस-
मान नाम उसी अनुपशयका पर्यायवाचक गन्ध
है ॥ १३ ॥ १४ ॥

सम्प्राप्ति ।

यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानुविसर्पता।
निवृत्तिरामयस्यासौ सम्प्राप्तिर्जा-
तिरागतिः ॥ १५ ॥

दोष कहिये वात पित्त कफ इनका दुष्ट होना
नाम कुपित होता अनेक प्रकारका है अर्थात् स्वका-
रण या दूसरेके कारण करके ऐसे कुपित दोष अपने
स्थानको छोड़कर देहमें ऊपर नीचे तिरछे विचरते
हैं उस विचरनेसे जो रोग प्रकट हो उसको सम्प्राप्ति
कहते हैं और जाति तथा आगति ये दोनो पर्याय-
वाचक नाम उसी सम्प्राप्तिके है, तात्पर्यार्थ यह है
कि मनुष्यके देहमें वात पित्त कफ ये सम्पूर्ण दोष
बढ़का जैसे रोगको प्रगट करै वैसे ही उसको सम्प्राप्ति
कहते हैं । उदाहरण-जैसे कुपित दोषोका आसाश-
यमें प्रवेश होनेसे और उस स्थानमें इतन्ततो गमन
करनेसे और पक्काशयमें रहनेवाली अग्निको बाहर
निकालनेसे तथा उसी जठर अग्निसं सर्व देहके तप्त
होनेसे यह ज्वर है, ऐसा जो निश्चय किया जाता है
उसीको सम्प्राप्ति कहते हैं, ऐसे ही अतिसारादि रोगोकी
सम्प्राप्ति जाननी चाहिये ॥ १५ ॥

संख्या विकल्पप्राधान्यबलकालविशेष-
पतः । सा भिद्यते यथात्रैव बह्व्य-
न्तेऽष्टौ ज्वरा इति ॥ १६ ॥

अब संप्राप्तिके भेद कहते हैं, सा कहिये सो
संख्यादि विशेषण करके पांच प्रकारकी है जैसे १
संख्या २ विकल्प ३ प्राधान्य ४ बल ५ काल,
जैसे इसी ग्रंथमें आगे आठ प्रकारका ज्वर, पांच
प्रकारकी खाँसी कही जायगी अर्थात् रोगोकी
गणनाको ही संख्यारूप सम्प्राप्ति कहते हैं ॥ १६ ॥

दोषाणां समवेतानां विकल्पोऽशां-
शकल्पना । स्वातन्त्र्यपारतन्त्र्या-
भ्यां व्याधेः प्राधान्यमादिशेत् ॥ १७ ॥

मिल हुए दोष कहिये वात पित्त कफ इनके
अंशांशका अनुमान करना उसका विकल्प-
रूप सम्प्राप्ति कहते हैं, जैसे धूँके निकलनेसे यह
पर्वत अग्निवाला है, ऐसे ही इस रागके देहमें वात
का अंश विशेष है कोहसे कि वातके अंश विशेष
मिलनेसे इसी अनुमानको विकल्पसंप्राप्ति कहते हैं ।
उदाहरण—जैसे रूखी गीतल हलकी और फला-
नेवाली इत्यादि गुणयुक्त जो पवन उसका रूक्ष
आदि गुणयुक्त कसैला रस वातको सर्वाश करके
बढानेवाला है । ऐसे ही कटुरस रुब्र भाव करके
पित्तका बढानेवाला है अर्थात् क्रुदु, उष्ण, तीक्ष्णत्व
करके हीग पित्तको बढाने वाली है । ऐसे ही मधुर-
रस जैसे भैरुका दूध यह सर्व भाव करके कफ
बढाने वाला है इत्यादि । इसमें “दोषाणां” जो बहु-
वचन है सो दोषोके पृथक् पृथक् ग्रहणके वास्ते है
और “समवेतानाम्” यह पद जो है सो द्वंद्वज और
सन्निपातके ग्रहणनिमित्त धरा है । व्याधिकी स्वत-
न्त्रता और परतंत्रता करके प्रधानता और अप्र-
धानता कही है, जैसे स्वतंत्र ज्वरको प्रधानता है और
ज्वराधीन श्वास आदि रोगोको अप्रधानता है । अर्थात्
व्याधिकी स्वतंत्रतासे प्रधानता और परतंत्रतासे
अप्रधानता जाननी चाहिये ॥ १७ ॥

हेत्वादिकात्स्नर्यावयवैर्बलावलविशो-
षणम् ॥ १८ ॥

हेतु आदि शब्दोंसे हेतु, पूर्वरूप और रूप इन
के सर्व अवयव (लक्षण) मिलनेसे व्याधिको बल-
वान् जानना और थोड़े लक्षण मिलनेसे निर्बल

जानना जस रागक प्रति जो निदान कहा है वह
निदान सम्पूर्ण रोगोको उत्पन्न करनेवाला है या
एकदेश, ऐसे ही पूर्वरूप भी समस्त अवयवों करके
व्याधिका प्रकाशक है या एकदेशसे इत्यादि ॥ १८ ॥

नक्तंदिनर्तुभुक्तांशैर्व्याधिकालो यथा-
बलम् ॥ १९ ॥

नक्त (रात्रि) दिन (दिवस) ऋतु (वस-
न्तादि) भुक्त (आहार) इनका अंश कहिये एक-
देश उसको यथादोष (वात, पित्त, कफ) के अनु-
सार व्याधिका काल अर्थात् रागके घटने बढनेके
हेतुका समय जाने । उदाहरण दिखाते हैं । जैसे
रात्रिके तीन भाग करे प्रथम, मध्य और अन्त्य,
तो रात्रिका प्रथमभाग कफका, मध्यभाग पित्त
का, अन्त्यभाग वातका है । ऐसे ही दिनके भी
तीन भाग करे तो पूर्वाह्न कफका, मध्याह्न पित्तका,
अपराह्न वातका है । ऐसे ही ऋतु, जैसे वसंतऋतु
में कफ, शरदऋतुमें पित्त और वर्षामे वात कुपित
होता है । ऐसे ही भोजनका, जैसे भोजन करनेके
समय कफका काल और अन्नके पचनेके समय
पित्तका काल और जब भले प्रकार परिपक्व होगया
तब वातका काल, इसके जाननेसे यह प्रयोजन है
कि, जिस दोष (वात, पित्त, कफ) का जा
काल कहा है उसका उसी २-काल में जान लेना
काठिन मालूम नहीं हाता ॥ १९ ॥

इति प्राक्ते निदानार्थस्ततद्रथासेनो
पदिश्यते ॥ २० ॥

इति कहिये यह संक्षिप्त प्रकारसे जो निदानार्थ
कहा उसे विस्तारपूर्वक प्रतिरोगके निदान पूर्वरूपादि
करके कहेंगे ॥ २० ॥

सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता
मलाः । तत्प्रकोपस्य तु शोक्तं विवि-
धाहितसेवनम् ॥ २१ ॥

अब पूर्व कहे निदान के दो भेद कौन सन्निकृष्ट
और विप्रकृष्ट उसमें सन्निकृष्ट कौन वातादिक
समीपके कारण करके सर्व रोगोका कारण है सो
कहते हैं “सर्वेषामिति” कुपित हुए जो मल (वात,
पित्त, कफ) ये सम्पूर्ण रोगोके कारण होते हैं और
उन वात, पित्त, कफ दोषोके कोपका कारण
अनेक प्रकारका अपथ्यसेवन करना ही है ॥ २१ ॥

निदानार्थकरो रोगो रोगस्याप्युपजा-
यते । तद्यथा ज्वरसन्तापाद्रक्तपित्त-
मुदीर्यते ॥ रक्तपित्ताज्ज्वरस्ताभ्यां
श्वासश्चाप्युपजायते । ष्ठीहाभि
वृद्ध्या जठरं जठराच्छोफ एव च ॥
अशोभ्यो जाठरं दुःखं गुल्मश्चाप्युप-
जायते ॥ अतिश्यायाद्भ्रूवेत्कासः
कासात्सञ्जायते क्षयः । क्षयो रोगस्य
हेतुत्वे शोषस्याप्युपजायते ॥ २२ ॥

कई प्रश्न करे कि जो, पूर्व कह आये हैं यह ही निदान है अथवा इसके व्यातीरक्ति और इसलिये कहते हैं रोगका रोग भी निदान होता है अर्थात् जो निदानसे कार्य होता है वह ही रोगसे भी होता है, इसवास्ते दृष्टांत देकर कहते हैं "तद्यथेति" जैसे ज्वरसन्तापसे रक्तपित्त प्रगट होता है और रक्तपित्तसे ज्वर और रक्तपित्त व ज्वरमे श्वास प्रगट होता है और ष्ठीहाके बढनेसे जैसे उदररोग और उदररोगसे सूजन, बवासीरसे जस उदररोग और गुल्म (गोला) रोग, दिनमे सोने आदिकोसे जुकाम होता है और जुकामसे खांसी तथा खांसीसे ओज-प्रभृति धातुओंका क्षय होता है। यह क्षयरोग (राज यक्ष्मा) संपूर्ण रोगोमे राजा है और शोषको भी प्रगट करता है ॥ २२ ॥

ते पूर्व केवलता रोगाः पश्चाद्विद्वर्थकारि-
णः । उभयार्थकरा दृष्टास्तथैव
कार्यकारिणः ॥ २३ ॥

वे रोग प्रथम स्वतंत्र होत हैं और पीछे जब बल मिल गया तो वे ही हेत्वर्थकारी अर्थात् रोगके उत्पन्न करनेवाले होते हैं, जैसे ज्वरसे रक्तपित्त होता है । इस प्रकार रोग उभयार्थकारी अर्थात् कार्य—कारण रूप हैं, सारांश यह कि स्वतंत्र रोग होनेसे कार्यरूप है और अन्य रोगका कारण होनेसे कारणरूप है ॥ २३ ॥

कश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा
निवर्तते । न प्रशाम्यति चाप्यन्यो
हेतुत्वं कुरुतेऽपि च ॥ एवं कृच्छ्रतमो
नृणां दृश्यते व्याधिसंकरः ॥ २४ ॥

१ शोषश्च इति पाठान्तरम् ।

अब उसी रोग उत्पन्न करनेवाली व्याधि की विचित्रता दिखाते हैं, जैसे कोई एक रोग दूसरे का कारण हो अर्थात् दूसरे रोगको प्रगट कर आप शांत हो जाता है । जैसे ज्वरके संतापसे रक्तपित्त होता है उस समय ज्वर दूर हो जाय और रक्तपित्त रह जावे । और कोई रोग दूसरे रोगको प्रगट कर आप जैसाका तैसा बना रहता है, जैसे बवासीर नहीं जाय और गुल्म तथा उदररोग पैदा होते हैं । इस प्रकार मनुष्योंके घोर क्लेशदायक मिले हुए रोग देखनेमे आते हैं । विशेष करके चिकित्सा विरुद्ध होनेसे ये रोग कृच्छ्रतम होते हैं ॥ २४ ॥

तस्माद्यत्नेन सद्बैद्यैरिच्छद्भिः सिद्धि-
मुत्तमाम् । ज्ञातव्यो वक्ष्यते योऽयं
ज्वरादीनां विनिश्चयः ॥ २५ ॥

अब कहें हुए निदानादिपंचकद्वारा रोगनिवृत्ति रूप सिद्धिकी इच्छा करके अवश्य जानने योग्यको कहते हैं "तस्मात्" इति इसी कारण उत्तम सिद्धि हमको प्राप्त हो ऐसी जिन सद्बैद्योंकी इच्छा है उन को ज्वरादि रोगोका निदान जो आगे कहते हैं वह यत्नेसे जानना चाहिये ॥ २५ ॥

रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम् ।
ततः कर्म भिषक् पश्चाज्ज्ञानपूर्व समा-
चरेत् ॥ २६ ॥

वैद्यको चाहिये कि प्रथम रोगकी परीक्षा करे पीछे औषध की परीक्षा करे फिर ज्ञानपूर्वक चिकित्सा करे ॥ २६ ॥

यस्तुरोगमविज्ञाय कर्माण्यारभते भिषक् ।
अप्यौषधविधानज्ञस्तस्यसिद्धिर्यदृच्छया ॥

जो वैद्य रोगोको विना जाने चिकित्सा करता है चाहे वह औषधमे प्रवीण भी हो तथापि उसकी सिद्धि प्रारब्धके अधीन है ॥ २७ ॥

अप्यौषधविधानज्ञः सर्वभेषज्यको-
विदः । देशकालप्रमाणज्ञस्तस्य
सिद्धिर्न संशयः ॥ २८ ॥

जो वैद्य सम्पूर्ण औषधियोंके विधानको जाननेवाला है और सर्व औषधियोंके जाननेमे प्रवीण है तथा देश और कालके प्रमाणको जानता है, उसकी सिद्धि में कुछ संशय नहीं ॥ २८ ॥

भैषज्यहारचेष्टानां यो न वेत्ति गुणा-
गुणम् न स वेत्ति भिषक्सम्यक्तस्य
स्वास्थ्यहिताहितम् ॥ २९ ॥

जो वैद्य औषध, आहार और रोगीकी चेष्टाके गुण अवगुणोंको नहीं जानता वह उसके स्वास्थ्य संबन्धी हित और अहितको भी अच्छे प्रकारसे नहीं जान सकता ॥ २९ ॥

आदावन्ते रुजां ज्ञाने प्रयतेत चिकि-
त्सकः । साध्यासाध्यविभागज्ञस्ततः
कुर्व्याच्चिकित्सितम् ॥ ३० ॥

साध्य और असाध्य रोगको जाननेवाला वैद्य प्रथम रोगको अच्छे प्रकारसे जाने फिर उसकी चिकित्सा करे ॥ ३० ॥

यस्तु रोगविशेषज्ञः सर्वभैषज्यको-
विदः । देशकालप्रमाणज्ञस्तस्य
सिद्धिर्न संशयः ॥ ३१ ॥

जो वैद्य सम्पूर्ण रोगों और सब औषधियोंके विधानमें प्रवीण है तथा देश और कालके प्रमाणको जाननेवाला है, उसको निस्संदेह सिद्धि होती है ॥ ३१ ॥

दर्शनस्पर्शनप्रश्नैर्व्याधिज्ञानं त्रिधा
मतम् । आदौ दृशस्ततः स्पर्शाच्छी-
तादिप्रश्नतोऽपरम् ॥ ३२ ॥

दर्शन (देखना), स्पर्श छूना और प्रश्न (पूछना) इन तीन प्रकारसे रोगका ज्ञान होता है, वहाँ प्रथम मल, मूत्र, जिह्वादिकको देखै, पश्चात् रोगीके शरीरको छूकर शीतादिकको जाने फिर उससे सम्पूर्ण हाल पूछे ॥ ३२ ॥

कृच्छ्रोपायः सुखोपायो द्विविधः
साध्य उच्यते । असाध्यो द्विविधो
ज्ञेयो याप्यो यश्चाप्रतिक्रियः ॥ ३३ ॥

कष्टसाध्य और सुखसाध्य ऐसे साध्य दो प्रकारका है तथा असाध्य भी दो प्रकारका है, एक याप्य और दूसरा अचिकित्स्य अर्थात् त्याज्य ॥ ३३ ॥

याप्याः केचित्प्रकृत्यैव साध्या
याप्या उपेक्षिताः । स्वभावाद्वा-
धयोऽसाध्याः केचिद्याप्या उपेक्षि-
ताः ॥ ३४ ॥

कोई रोग तो स्वभावसे याप्य होते हैं और कोई साध्यकी उपेक्षा करनेसे याप्य हो जाते हैं, कोई स्वभावसे ही असाध्य होते हैं और कोई याप्यरोग उपेक्षा अर्थात् उनकी चिकित्सा नहीं करनेसे असाध्य होजाते हैं ॥ ३४ ॥

साध्या याप्यत्वमायान्ति याप्याश्चा-
साध्यतां तथा । घ्नन्ति प्राणानसाध्या-
स्तु नराणां निष्क्रियावताम् ॥ ३५ ॥

चिकित्सा नहीं करनेवाले मनुष्योंक साध्यरोग याप्य होजाते हैं, याप्यरोग असाध्य होजाते हैं और असाध्यरोग प्राणोंका नाश करते हैं ॥ ३५ ॥

जातमात्रश्चिकित्स्यस्तु नोपेक्ष्योऽल्प-
तया गदः । वह्निशत्रुविषैस्तुल्यः
स्वल्पोऽपि विकरोत्यसौ ॥ ३६ ॥

रोगके उत्पन्न होते ही उसका यत्न करना चाहिये यह न समझे कि, रोग तो अभी उत्पन्न हुआ, साध्य है अथवा जरासा ही है ऐसी उपेक्षा न करे । क्योंकि, थोड़े दिनोंका उत्पन्न हुआ अल्प ही रोग, अग्नि, शत्रु और विषके समान अनेक प्रकारके विकारोंको उत्पन्न कर देता है ॥ ३६ ॥

स च प्रकुपितो दोषः समुत्थानविशे-
षतः । स्थानान्तरगतश्चापि विकारा-
न्कुरुते बहून् ॥ ३७ ॥

वही दोष कालान्तरमें अनेक कारणोंसे कुपित होकर पश्चात् स्थानान्तर में जाकर बहुतसे विकारोंको उत्पन्न कर देता है ॥ ३७ ॥

निवृत्तोऽपि पुनर्व्याधिः स्वल्पेनायाति
हेतुना । क्षीणे मार्गे कृते दोषैः शेषः
सूक्ष्म इवानलः ॥ ३८ ॥

आराम हुआ रोग, दोषोंके द्वारा क्षीण किये हुए मार्गमें शेष रह जाने पर अल्प कुपय्य करनेसे ही जरासी अग्निकी चिनगारीके समान फिर प्रचण्ड हो जाता है ॥ ३८ ॥

कर्मजा व्याधयः केचिदोषजाः
सन्ति चापरे । कर्मदोषोद्भवाश्चान्ये
कर्मजास्ते स्वहेतुकाः ॥ ३९ ॥

कोई व्याधि कर्मज होती है और कोई दोषज होती है और कोई व्याधि कर्मज और दोषज दोनों मिला

होती है । पहिले जन्ममें किये हुए जो पापकर्म उनके उदयसे जो रोग उत्पन्न होता है उसको कर्मज रोग कहते है । वात,पित्त, कफ इनसे उत्पन्न हुए रोगोंको दोषज कहते है और कोईऐसे राग होतेह कि,पहिले जन्मके किये हुए जो पापकर्म वह उदय हो ही रहे थे कि,उसी समय कारण पाकर दोष भी कुपित होगये तो उसको कर्मज और दोषज दोनो मिश्रित जानना, कर्मज व्याधि अपने कारणसे ही उत्पन्न होती है ॥३९॥

यथाशास्त्रं तु निर्णीतो यथाव्याधि चिकित्सितः । न शमं याति यो व्याधिः स ज्ञेयः कर्मजो बुधैः ॥४०॥

जिस रोगका शास्त्रानुसार निदान कर यथोक्त चिकित्सा कीजावे किन्तु उस चिकित्सासे रोग शांत न हो तो उसको कर्मज व्याधि जानना ॥ ४० ॥

स्वल्पदोषो गरीयान्यः स ज्ञेयः कर्मदोषजः ॥ ४१ ॥

जिस रोगमें अल्प दोष हो और वह बहुत गम्भीर दीखे उसको भी कर्मदोषज जानना ॥ ४१ ॥

कर्मक्षयात्कर्मकृतो दोषजः स्व स्वमौषधैः । कर्मदोषोद्भवो याति कर्मदोषक्षयात्क्षयम् ॥ ४२ ॥

कर्मज रोग कर्मके क्षय होनेसे शान्त होते है और दोषज रोग चिकित्सा करनेस शान्त होते है । एवं कर्मज और दोषज रोग, कर्म और दोष दोनोके क्षय होनेसे शान्त होते ह ॥ ४२ ॥

नास्ति रोगो विना दोषैर्यस्मात्तस्माच्चिकित्सकः । अनुक्तमपि दोषाणां लिङ्गैर्व्याधिमुपाचरेत् ॥ ४३ ॥

दोषोंके विना रोग उत्पन्न नहीं होते, इसकारण जो रोग शास्त्रमें नहीं कहे है उन रोगोंकी दोषोंके लक्षणोंके अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये ॥४३॥

विकारनामाकुशलो न जिह्वीयात्कदाचन । नहि सर्वविकाराणां नामतोऽस्ति ध्रुवा स्थितिः ॥ ४४ ॥

रोगके नामका निश्चय न हो सकनेपर वैद्यके लज्जा नहीं करनी चाहिये । कारण यह है कि, सर्वरोगोंका नामसे ही निश्चय नहीं होता ॥ ४४ ॥

यथा विषं यथा शस्त्रं यथाग्निरशानिर्यथा । तथौषधमविज्ञातं विज्ञातममृतं यथा ॥ ४५ ॥

जिस प्रकार विष,शस्त्र, अग्नि और वज्र प्राणोंका नाश करते हैं, उसीप्रकार विना जानी हुई औषधि प्राणोंका नाश करती है और जानी हुई औषधि अमृतकी समान गुण करती है ॥ ४५ ॥

याभिः क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातवःसमाः । सा चिकित्सा विकाराणां कर्म तद्भिषजां मतम् ॥ ४६ ॥

जिस क्रियासे मनुष्योंके शरीरमें रसादि धातु सम होते है वही रोगोंकी चिकित्सा है और वही वैद्योंका कर्म ह ॥ ४६ ॥

न चैकान्तेन निर्दिष्टे शास्त्रेऽपि निविशेद् बुधः । स्वयमप्यत्र भिषजा ज्ञेयं बुद्धिमता भवेत् ॥ ४७ ॥

विद्वान् वैद्यको एक मात्र शास्त्रमें कहे हुए वाक्य पर ही आग्रहपूर्वक नहीं बैठे रहना चाहिये, किन्तु अपनी बुद्धिसे तर्क वितर्क कर सब हाल जानना चाहिये (ऐसे स्थानमें दोषादिकी न्यूनाधिकताक विचार कर चिकित्सा करे) ॥ ४७ ॥

उत्पद्यते हि सावस्था देशकालबलं प्रति । यस्यां कार्य्यमकार्य्यं स्यात्कर्मकार्य्यञ्च वर्जितम् ॥ ४८ ॥

देश, काल और बलाबलकी अवस्थाको विचारकर जो रोगीको औषधि दीजावे यदि वह औषधि रोगीको विकार लावे तो उसको त्यागदेवे. कारण यह ह कि अनेक रोगोंमें देश, काल और बलके अनुसार करने योग्य काम भी नहीं करने योग्य होजाता है और न करने योग्य काम करनेयोग्य हो जाता है ॥ ४८ ॥

व्याधेस्तत्त्वपरिज्ञानं वेदनायाश्च निग्रहः । एतद्वैद्यस्य वैद्यत्वं न वैद्यः प्रभुरायुषः ॥ ४९ ॥

रोगका ज्ञान और वेदनाका दूर करना यही वैद्यका वैद्यत्व (वैद्यता) है, वैद्य आयुका स्वामी नहीं है ॥ ४९ ॥

ऋतुप्रकरण ।

वर्षा नभोनभस्यौ तु तत्र वायुः प्रकु-
प्यति । पित्तं प्रायेण रक्तञ्च शरदा-
शिवनकार्तिकौ ॥ ५० ॥

श्रावण और भादोंको वर्षाऋतु कहते है, वर्षाऋ-
तुमे वायु कुपित होती है, आश्विन और कार्तिकको
शरदऋतु कहते हैं, शरदऋतुमे प्रायः पित्त और
रुधिर कुपित होते है ॥ ५० ॥

हेमन्तो मार्गपौषौ तु वातलो रूक्ष
एव तु । तद्रच्च शिशिरो माघः
फाल्गुनश्च प्रकीर्तितः ॥ ५१ ॥

मार्गशिर और पौषको हेमन्तऋतु कहते है, हेमन्त
ऋतु वातकारक और रूक्ष है । माघ और
फाल्गुनको शिशिरऋतु कहते है, शिशिरऋतुके
गुण भी उसीके समान है ॥ ५१ ॥

वसन्तश्चैत्रवैशाखौ तस्मिञ्श्लेष्मा
प्रवर्तते । ज्येष्ठाषाढौ च विख्यातौ
निदाघः पित्तवानपि ॥ ५२ ॥

चैत्र और वैशाखको वसन्तऋतु कहते है, वसन्त-
ऋतुमे कफ कुपित होता है । ज्येष्ठ और आपाढको
ग्रीष्मऋतु कहते है, ग्रीष्मऋतुमे पित्त कुपित होता
है ॥ ५२ ॥

जलप्रकरण ।

अथर्तुक्रमनिर्दिष्टं जलं काथ्यं च
वक्ष्यते । वर्षासूदकमादाय पच्येत्तस-
प्तभागिकम् । अष्टभागावशिष्टं तु
निर्दोषसूदकं पिबेत् ॥ ५३ ॥

जिसप्रकार ऋतुओंमे जलके काथका क्रम कहा है
उसीको अब कहता हूँ, वर्षाऋतुमे जल लेकर औटावे
जब पचते २ सात भाग जल जाय अर्थात् सेरभरका
अधपाव बाकी रह जाय तब उस अष्टावशेष निर्दोष
जलको पीवे ॥ ५३ ॥

धारापातेन विष्टम्भि दुर्जरं पवना-
हतम् । शृतशीतं त्रिदोषघ्नं वाप्या-
न्तर्भावितं शुवि ॥ ५४ ॥

बढ़ी औटा हुआ जल धारारूपसे पतित होनेपर
विष्टंभकारक होता है और वायुसे ताडित होनेपर

दुर्जर होता है । जो औटाकर वर्तनमें ही मुँह ढक
कर शीतल किया गया हो ऐसा शृतशीतल जल
त्रिदोषनाशक होता है ॥ ५४ ॥

प्रावृट् नभोनभस्यौ च इषोज्ञौ तु
शरन्मतौ । मार्गपौषौ तु हेमन्तः
शिशिरो माघफाल्गुनौ ॥ वसन्तश्चै-
त्रवैशाखौ निदाघः शुचिशुक्ल-
भाक् ॥ ५५ ॥

श्रावण और भादोंको प्रावृट्ऋतु कहते है, कार
और कार्तिकको शरदऋतु कहते है, मार्गशिर और
पौषको हेमन्तऋतु कहते है, माघ और फाल्गुनको
शिशिरऋतु कहते है, चैत्र और वैशाखको वसन्त
ऋतु कहते है, ज्येष्ठ और आपाढको ग्रीष्मऋतु
कहते है ॥ ५५ ॥

प्रावृट्काले शृतं तोयं दद्याच्चाष्टगुणं
जलम् । अष्टभागावशिष्टं तु निर्दो-
षसूदकं पिबेत् ॥ ५६ ॥

प्रावृट्ऋतुमे अष्टावशेष अर्थात् सेरभरका आधपाव
शेष रहा और औटाकर शीतल कियाहुआ निर्दोष
जल पीना चाहिये ॥ ५६ ॥

शरदि षड्गुणं तोयं दत्त्वा कथित-
माचरेत् । षष्ठभागावशिष्टन्तु पिबे-
दोषहरं जलम् ॥ ५७ ॥

शरदऋतुमे षष्ठावशेष अर्थात् तीन पाव जलको
औटावे, जब औटते २ आध पाव रह जाय तब उस
दोषनाशक जलको पीवे ॥ ५७ ॥

हेमन्ते च शृतं तोयं दत्त्वा पञ्चगुणं
जलम् । पञ्चभागावशिष्टन्तु निर्दो-
षसूदकं पिबेत् ॥ (१)

हेमन्तऋतुमे सवासेर जलको औटावे जब
औटते २ पावभर जल बाकी रह जाय तब उस
पंचावशेष निर्दोष जलको पीवे ॥ (१)

शिशिरे च शृतं तोयं दत्त्वा
चतुर्गुणं जलम् । चतुर्भागावशिष्टन्तु
निर्दोषसूदकं पिबेत् ॥ (२)

शिशिरऋतुमे चतुर्थांश शेष अर्थात् एक सेर
जलको औटावे जब औटते २ पाव भर बाकी रह

जाय तव शीतल करके उस निर्दोष जलको पीवे ॥ (२)

वसन्ते त्रिगुणं तोयं दत्त्वा कथितमा-
चरेत् । तृतीयभागशिष्टन्तु पिबेदोष-
हरं जलम् ॥ ५८ ॥ (३)

वसन्तऋतुमे तीन भागका एक भाग जल बाकी रह जाय अर्थात् तीनपाव जलको औटावे जब औटते २ एक पाव रह जाय तब उसको शीतल करके पान करे ॥ ५८ ॥ (३)

ग्रीष्मे च द्विगुणं तोयं दत्त्वा वापि
भिषग्वरः । अर्धोद्कावशिष्टन्तु पिबे-
दोषहरं जलम् ॥ ५९ ॥

ग्रीष्मऋतुमे अर्द्धावशेष अर्थात् एकसेर जलको औटावे जब औटते २ आधासेर बाकी जल रह जाय तब उसको शीतल करके पान करे ॥ ५९ ॥

कोपः शरद्वसन्तेषु बहुकालेषु
शान्तिः ॥ कफपित्तानिलाः पूर्व-
मध्यान्तेषु व्यवस्थिताः । वयोहोरा-
त्रिभुक्तानां सन्धिष्वपि कफानिलौ ॥
॥६०॥ वायोः प्रत्यूषसाधाद्दे जीर्णान्ते
च विसर्पणम् । पित्तस्याहो निशश्चाद्धे
जीर्णमाने च लक्षयेत् ॥ ६१ ॥
शुक्लमात्रप्रदोषे तु पूर्वाह्ने श्लेष्मणो
भवेत् । एकद्वित्रिविभागेन दुष्टान्दो-
षान्विशोधयेत् ॥ ६२ ॥

शरद् और वसन्तऋतुमें कुपित हुए वातादिदोष बहुत कालमे शांत होते हैं. कफ, पित्त और वात ये तीनों दोष अवस्था, दिन, रात्रि और भोजन, इनके प्रथम, मध्य और अंतभागमें व्यवस्थित हैं अर्थात् प्रथम वाल्यावस्थामे कफ, दूसरी तरुणावस्थामे पित्त और अंत अर्थात् वृद्धावस्थामे वायुका समय होता है, दिनके प्रथमभागमें कफ, मध्यमें पित्त, अन्तमें वातका समय होता है, रातके प्रथमभागमें कफ, मध्यभागमें पित्त और रात्रिके अंतमें वातका समय होता है । भोजन करते समय कफ, भोजनके पचते समय पित्त और भोजनके पच जानेपर वायुका समय होता है तथा इनकी संधियोंमें कफ और वायुका

समय होता है. एक, दो, तीन इन भागोंसे दुष्ट दोषोंको क्रमसे शोधन करे ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥

शीते शीतप्रतीकारमुष्णे चैवोष्णवा-
रणम् । कृत्वा कुर्व्यात्क्रियां प्राप्तां
क्रियाकालं न हापयेत् ॥ ६३ ॥

शीत कालमें शीतका प्रतिकार करते हुए और उष्ण कालमें उष्णताका प्रतिकार करते हुए चिकित्सा करे ! किन्तु समयके विपरीत कदापि चिकित्सा न करे तथा क्रियाके कालको न जाने दे अर्थात् समयपर चिकित्सा करे ॥ ६३ ॥

अप्राप्ते वा क्रियाकाले प्राप्ते वा न
कृता क्रिया । क्रिया हीनातिरिक्ता
च साध्येष्वपि न सिध्यति ॥ ६४ ॥

जो वैद्य अप्राप्तसमयमें चिकित्साको करता है और प्राप्तसमयमें अथवा क्रियाके समयमें क्रिया नहीं करता है वह क्रियाहीन वैद्य साध्य रोगोंको भी नहीं सिद्ध कर सकता ॥ ६४ ॥

यात्युदीर्णं शमयति नान्यव्याधिं
करोति च । सा क्रिया न तु या
व्याधिं हरत्यन्यमुदीरयेत् ॥ ६५ ॥

जो बड़े हुए रोगको शमन करे तथा दूसरे रोगको उत्पन्न नहीं करे उसको चिकित्सा कहते हैं. किन्तु उसको चिकित्सा नहीं कहते कि जो एक रोगको तो नष्ट करे और दूसरेको उत्पन्न करे ॥ ६५ ॥

प्रकृतिलक्षण ।

शुक्रासृग्गर्भिणीभोज्यचेष्टा गर्भाश-
यान्तरे । यः स्यादोषोऽधिकस्तेन
प्रकृतिः सप्तधोदिता ॥ ६६ ॥

पुरुष और स्त्रीके संयोगके समय वीर्य, रज, स्त्रीका भोजन, स्त्रीकी चेष्टा और गर्भाशय इनमें जौनसा दोष अधिक हो उसी दोषके अनुसार गर्भमें जीवकी प्रकृति होती है. इस प्रकार वह प्रकृति वातादिदोषसे सात प्रकारकी कही है ॥ ६६ ॥

कृशो रुक्षोऽल्पकेशश्च चलचित्तो न
च स्थिरः । बहुवाग्व्योमगः स्वप्ने
वातप्रकृतिको नरः ॥ ६७ ॥

वातप्रकृतिवाले मनुष्य कृश, रुखे शरीरवाले, अल्पकेशवाले, चंचलचित्तवाले, जिनका मन कहीं

स्थित नहीं है, बहुत बोलनेवाले और स्वप्नमें आकाशमें जानेवाले अर्थात् प्रायः सुप्नमें आकाशमें गगन करते हैं ॥ ६७ ॥

**अकालपलितो गौरः प्रस्वेदी कोपनो
बुधः । स्वप्नेऽपि दीप्तिवत्प्रेक्षी पित्त-
प्रकृतिको नरः ॥ ६८ ॥**

पित्तप्रकृतिवाले मनुष्य विना समय (थोड़ी-अवस्था) में सफेद बालोंवाले, गौरवर्ण, अधिक पसीनेवाले, क्रोधस्वभावी, पंडित और स्वप्नमें मूर्ख, चन्द्रमा, अग्नि इत्यादि दीप्त पदार्थोंको देखते हैं ॥ ६८ ॥

**स्थिरचित्तः सुबद्धाङ्गः सुव्रतः स्निग्ध-
मूर्द्धजः । स्वप्ने जलाशयालोकी
श्लेष्मप्रकृतिको नरः ॥ ६९ ॥**

कफप्रकृतिवाला मनुष्य स्थिरचित्तवाला, गठीले शरीरवाला, सुडौल, सदाचारी, चिकने बालोंसे युक्त और स्वप्नमें जलाशयको देखनेवाला होता है ॥ ६९ ॥

**संमिश्रैर्लक्षणैर्ज्ञेया द्वित्रिदोषानुगा
नराः । दोषश्चेद्रससद्भावे व्याधित-
प्रकृतिः स्मृतः ॥ ७० ॥**

दो दोषोंके लक्षणोंके होनेसे द्वन्द्वज प्रकृति और तीन दोषोंके होनेसे त्रिदोषज प्रकृति होती है, दोष और रसभावके होनेसे रोगीकी व्याधित प्रकृति कही है ॥ ७० ॥

**प्रकृतिमिह नराणां भौतिकीं कोचि-
दाहुः पवनदहनतोयैः कीर्तिता-
स्तास्तु तिस्रः । स्थिरविपुलशरीरः
पार्थिवश्च क्षमावान् शुचिरथ चिर-
जीवी नाभसः खैर्महद्भिः ॥ ७१ ॥**

कोई २ वैद्य कहते हैं कि, मनुष्योंकी प्रकृति पंच महाभूतोंसे बनी है जैसे कि पवन (वात), अग्नि (पित्त) और जल (कफ) इन तीन महाभूतोंवाले मनुष्योंकी प्रकृति तो ऊपर कह चुके, अब दो पृथ्वी और आकाश प्रकृतिवाले मनुष्योंके लक्षण कहते हैं, जो मनुष्य स्थिर और पुष्ट शरीरवाला हो तथा क्षमावान् हो उनकी पृथ्वी प्रकृति जानना । जो शुद्ध आत्मावाला हो और बहुतकाल पर्यन्त जीवे उनकी आकाशप्रकृति जाननी ॥ ७१ ॥

**विपजातो यथा कीटां न विपण
विपद्यते । तद्वत्प्रकृतयो मर्त्यं शक्नु-
वन्ति न बाधितुम् ॥ ७२ ॥**

जिस प्रकार विपस उत्पन्न हुआ कीड़ा विपके द्वारा पीड़ित नहीं होता उसी प्रकार प्रकृतिगत दोष उसी प्रकृतिवाले मनुष्यको पीड़ित नहीं करते ॥ ७२ ॥

**वायुः सामो विबन्धाग्निसादस्तम्भन-
कूजनैः । वेदनाशोफनिस्तोद्रेः क्रम-
शोऽङ्गानि पीडयेत् ॥ ७३ ॥**

आमयुक्त वायु-विबन्ध, अग्निकी मंदता, स्तम्भ, कूजन, पीडा, सूजन, तोड़नेके समान वेदना और क्रमसे सब अंगोंको पीड़ित करता है ॥ ७३ ॥

**विचरेद्युगपच्चापि गृह्णाति कुपितो
भृशम् । स्नेहाद्यैर्वृद्धिमायाति मेघे
सूर्योदये निशि ॥ ७४ ॥**

एकसाथ सब अंगोंमें विचरण करती है और बारंबार कुपित होती है तथा स्नेहादिक (तैलादि) पदार्थोंसे वृद्धिको प्राप्त होती है एवं मेघके समय, सूर्योदय और रात्रिमें बढ जाती है ॥ ७४ ॥

**निरामो विशदो रूक्षो निविबन्धो-
ऽल्पवेदनः । विपरीतगुणैः शान्तिं
स्निग्धैर्याति विशेषतः ॥ ७५ ॥**

निरा मवायु-विशद, रूखी, विबन्धरहित, अल्प वेदना युक्त, सामवायुसे विपरीत गुणोंवाली और विशेषकर स्निग्ध पदार्थोंसे शांत होती है ॥ ७५ ॥

**दुर्गन्धं हरितं श्यावं पित्तमम्लरसं
गुरु । अम्लिकाकण्ठहृदाहकरं सामं
विनिर्दिशेत् ॥ ७६ ॥**

सामपित्त-दुर्गन्धित, हरित, ज्यामरंगका, खट्टे रसवाला, भारी तथा खट्टापन व कंठ और हृदयमें दाहको उत्पन्न करता है ॥ ७६ ॥

**आताम्रं पित्तमत्युष्णं रसे कटुकम-
स्थिरम् । पक्वं विगन्धि विज्ञेयं रुचि-
वह्निबलप्रदम् ॥ ७७ ॥**

निराम पित्त-ताम्रवर्ण, अत्यंत उष्ण, रसमें कटु और चंचल होता है एवं पक्व, गंधरहित, रुचिकारक, अग्नि और बलकारक होता है ॥ ७७ ॥

फेनिलस्तंतुलः श्यावः कण्ठदेशेऽव-
तिष्ठति । सामो बलाशो दुर्गन्धः
क्षुद्गारविधानकृत् ॥ ७८ ॥

साम कफ-फेनिल (झागोंसे मिला हुआ) तंतुवार,
श्याव, कंठमें रुकनेवाला, दुर्गन्धित तथा छीक और
डकारको रोकनेवाला है ॥ ७८ ॥

फेनवान्पिण्डितः पाण्डुर्निःसारोऽगन्ध
एव च । पक्वः स एव विजेयः स्वेद-
वान्वक्त्रशुद्धिकृत् ॥ ७९ ॥

पका हुआ कफ झागोंदार, गांठवाला, पांडुवर्ण,
सारहीन, गंधरहित, पसिनेसे युक्त और मुखको शुद्ध
करनेवाला होता है ॥ ७९ ॥

देशप्रकृतिलक्षण ।

बहूदकनगोऽनूपः कफमारुतरोग-
वान् । जाङ्गलोऽल्पाम्बुशाखी च
रक्तपित्तगदोत्तरः ॥ ८० ॥

जिसमें बहुतसे जलाशय और पर्वत हो उसको
अनूपदेश कहते हैं, अनूपदेश-रुफ और वायुके
रोगोंको उत्पन्न करता है, जिसमें थोड़े जलाशय
और थोड़े वृक्ष हो उसको जांगलदेश कहते हैं,
जांगलदेश-रक्त और पित्तके रोगोंको उत्पन्न करता
है ॥ ८० ॥

संश्लिष्टलक्षणोपेतो देशः साधारणो
मतः । समाः साधारणे यस्माद्दर्षा-
शीतोष्णमारुताः । समता तेन
दोषाणां तस्मात्साधारणो वरः ॥ ८१ ॥

जिसमें दोनों देशोंके लक्षण मिलते हो उसको
साधारणदेश कहते हैं, साधारणदेशमें वर्षा, शीत,
उष्ण और पवन समान होते हैं, इस कारण साधारणदेश
सब देशोंमें उत्तम है ॥ ८१ ॥

स्वदेशे निचिता दोषास्त्वन्यस्मि-
न्कोपमागताः । बलवन्तस्तथा न
स्युर्जलजा वा स्थलाहताः ॥ ८२ ॥

अपने देशमें संचित हुए दोष अन्य देशमें कुपित
हो तो बलवान् नहीं होते, उसीप्रकार जलदेशके
दोष स्थलमें और स्थलदेशके दोष जलमें कुपित
हानेपर बलवान् नहीं होते ॥ ८२ ॥

उचिते वर्तमानस्य नास्ति देशकृतं
भयम् । आहारस्वप्नचेष्टादौ तदे-
शस्य गुणे सति ॥ ८३ ॥

जो मनुष्य उचित आहार और विहार करते हैं
उनको दुष्टदेशका कुछ भी भय नहीं, इसलिये जिस
देशमें रहे उसके अनुसार ही आहार, निद्रा और
चेष्टा करनी चाहिये ॥ ८३ ॥

मिथ्यादृष्टा विकारा हि दुराख्याता-
स्तथैव च । यथा दुष्परिपृष्टाश्च मोह-
येयुश्चिकित्सकान् ॥ ८४ ॥

जिन रोगोंको वैद्यने अच्छे प्रकारसे नहीं देखा
और जिन रोगोंका समस्त हाल रोगीने वैद्यसे ठीक
नहीं कहा तथा जिन रोगोंका हाल वैद्यने रोगीसे
अच्छ प्रकार नहीं पूछा ऐसे रोग वैद्यको मोहित करते
हैं, इसलिये वैद्यको उचित है कि, अच्छे प्रकारसे रोगी-
की चेष्टाको देखे और समस्त व्यवस्था बूझ
तथा रोगी भी वैद्यको अच्छे प्रकारसे सब हाल
सुना दे ॥ ८४ ॥

चिकित्सापादचतुष्टय ।

वैद्यो व्याध्युपसृष्टश्च भैषज्यं परिचा-
रकः । एते पादाश्चिकित्सायाः कर्म-
साधनहेतवः ॥ ८५ ॥

वैद्य, रोगी, औषध और परिचारक ये चिकित्सा-
के चार पाद चिकित्सा कर्म हैं और येही (कार्य)
साधनके हेतु हैं ॥ ८५ ॥

वैद्यलक्षण ।

तत्त्वाधिगतशास्त्रार्थो दृष्टकर्मो रवय
कृती । लघुहस्तः शुचिः शूरः सर्वो-
पस्करभैषजः ॥ ८६ ॥ प्रत्युत्पन्नमतिर्धी-
मान्व्यवसायी प्रियवंदः । सत्यधर्मरतो
यश्च स भिषक्पदमश्नुते ॥ ८७ ॥

जो आयुर्वेद शास्त्रके तत्त्वार्थदो अच्छे प्रकारसे
जानता हो, जिसने अन्य वैद्यकी कीहुई क्रियाको
अनेकवार देखा हो और अपने आप चिकित्सा सम्ब-
न्धी क्रियामें कुशल हो, हलके हाथवाला हो, पवित्र
हो, शूर (गंभीर रोगीको देखकर घबडावे नहीं),
सर्वप्रकारक चिकित्साके उपकरण और औषधियोंसे

युक्त हो, अत्यन्त तीक्ष्णबुद्धिवाला, महाबुद्धिमान्, उद्योगी, प्रियवचन बोलनेवाला और सत्यधर्ममें तत्पर ऐसा वैद्य उत्तम होता है ॥ ८६ ॥ ८७ ॥

रोगीके लक्षण ।

आयुष्मान्सत्यवान्साध्यो द्रव्यवाना-
त्मवानपि । उच्यते व्याधितः पादो
वैद्यवाक्यकृदास्तिकः ॥ ८८ ॥

आयुष्मान्, सत्यधर्मपरायण, साध्य, द्रव्यवान्, इष्टमित्रोसे युक्त, वैद्यकी आज्ञाको माननेवाला और आरितिक ऐसा रोगी अच्छा कहा है ॥ ८८ ॥

औषधलक्षण ।

प्रशस्तदेशसम्भूतं प्रशस्तेऽहनि चोद्ध-
तम् । अल्पमात्रं महावीर्यं गन्धवर्ण-
रसान्वितम् ॥ ८९ ॥ दोषघ्नमग्लानिक-
रमविकारि विपर्यये । समीक्ष्य काले
दत्तं च भैषज्यं पाद उच्यते ॥ ९० ॥

उत्तम देशमें उत्पन्न हुई, शुभ दिनमें उखाड़ी हुई, अल्प मात्रा वाली और अत्यन्त वीर्यवान् तथा गंध वर्ण और रससंयुक्त, दोषनाशक, ग्लानि और विकार नहीं करनेवाली और विचारकर उत्तम समयमें दी गई ऐसी औषध उत्तम होती है ॥ ८९ ॥ ९० ॥

परिचारकलक्षण ।

स्निग्धोऽजुगुप्सुर्बलवान्युक्तो व्याधि-
तरक्षणे । वैद्यवाक्यकृद्श्रान्तः पादः
परिचरो मतः ॥ ९१ ॥

स्नेहयुक्त, ग्लानिरीहत, बलवान्, रोगीकी रक्षा करनेमें चतुर और वैद्यके वचनोसे श्रद्धा करनेवाला ऐसा परिचारक उत्तम होता है ॥ ९१ ॥

गुणबद्धिस्त्रिभिः पादेष्वतुर्थो गुणवा-
न्निषक । व्याधिमल्पेन कालेन
महान्तमपि साधयेत् ॥ ९२ ॥

औषध, रोगी और परिचारक ये तीनों गुणवान् पाद और चौथा गुणवान् वैद्य ये चारों पाद अल्पकाल में ही बड़े २ रोगोंको आरोग्य कर देने हैं ॥ ९२ ॥

वैद्यहीनास्त्रयः पादा गुणवन्तो-
ऽध्वपार्थकाः । उद्गातृहोतृब्रह्मणो
यथाऽध्वर्युं विनाऽध्वरे ॥ ९३ ॥

वैद्यके विना चिकित्साके तीनों पाद गुणवान् भी हों तो भी व्यर्थ है, जैसे अध्वर्युके विना यज्ञमें उद्गाता, होता और ब्रह्मा निरर्थक ह ॥ ९३ ॥

वद्यस्तु गुणवानेकस्तारयेदातुरं सदा ।
प्लवं प्रतितरंहीनं कर्णधार इवा-
म्भसि ॥ ९४ ॥

एक गुणवान् वैद्य ही सदैव रोगियोंको रोगरूप सागरसे तारता है जैसे प्रतितर (भीतरसे सहाय्य लगानेवाले अन्य मनुष्यों) के विना अकेला मझाह ही नावको पार लगाता है ॥ ९४ ॥

अथ मान ।

जालान्तरगते धानो रजो यदणु
दृश्यते । तैश्चतुर्भिर्भवेद्विक्षा लिक्षाषड्-
भिश्च सर्पपः ॥ ९५ ॥

सूर्यकी किरण जो घरके जाली, झरोखे, रोसन-दान और धमालामें पडती है और उनमें जो रजके त्रसरेणु दीखते हैं उन चार त्रसरेणुओंकी एक लिक्षा होती है, छः लिक्षाकी एक सरसो होती है ९५

षट्सर्षपर्यवस्त्वेको गुञ्जैका च यवै-
स्त्रिभिः । गुञ्जाभिर्दशाभिः प्रोक्तो
माषको ब्रह्मणा पुरा ॥ ९६ ॥

छः सरसोका एक जौ होता है, तीन जवोंकी एक गुंजा, दश गुंजाका एक मासा होता है ॥ ९६ ॥

चत्वारो माषकाः शाणास्तद्व्यं
कोलसंज्ञितम् । वटकं द्रक्ष्यं चैव
कर्षस्तद्विगुणो भवेत् ॥ ९७ ॥

चार मासेका एक शाण होता है, दो शाणका एक कोल होता है, वटक और द्रक्ष्य यह कोलके नाम हैं, दो कोलका एक कर्ष होता है ॥ ९७ ॥

अक्षः पिचुः पाणितलं कर्षं तच्च
सुवर्णकम् । विडालपदकं तुल्यं
किञ्चिच्च कवलग्रहम् ॥ ९८ ॥

अक्ष, पिचु, पाणितल, कर्ष, सुवर्णक, विडालपद, तुल्य, किञ्चित् और कवलग्रह ये कर्षके पर्याय हैं ॥ ९८ ॥

द्राभ्यामर्धपलं ताभ्यां शुक्तिश्चापि
तदुच्यते । स्याच्चतुष्काधिकं चैव पलं
सर्वत्र निश्चितम् ॥ ९९ ॥

दो कर्षका आधा पल होता है, उसको शुक्ति भी
कहते हैं, चार कर्षका एक पल होता है ॥ ९९ ॥

यत्प्रकुञ्चं पलं मुष्टिस्तथा बिल्वं
चतुर्थिका । षोडशिका समुद्दिष्टा
पलमेकं प्रमाणतः ॥ १०० ॥

प्रकुञ्च, पल, मुष्टि, बिल्व, चतुर्थिका और षोड-
शिका यह पलके नाम हैं ॥ १०० ॥

रक्तिकादिषु मानेषु यावत्सु कुडवेषु
च । शुष्कद्रवाद्वद्रव्याणां तुल्यमानं
प्रकीर्तितम् ॥ १०१ ॥

रत्तीसे लेकर कुडवपर्यन्त सूखे, गीले और
पतले पदार्थ समान लेने चाहिये ॥ १०१ ॥

क्वाथद्रव्यस्य बाहुल्यादुदकं स्वल्प-
मेव च । सम्यक्पाकं न मुञ्चन्ति
हीनवीर्यन्तु केवलम् ॥ १०२ ॥

क्वाथद्रव्योंके अधिक और जलके अल्पहोनेसे अच्छे
प्रकारसे पाक नहीं होता अर्थात् केवल हीनवीर्य
होता है ॥ १०२ ॥

आर्द्रद्रव्यद्रवद्रव्यपलैरष्टाभिरेव च ।

शुष्कद्रव्यचतुष्केण कुडवः समुदा-
हतः ॥ १०३ ॥

गीले पदार्थ और पतले पदार्थोंका आठ पलका
कुडव हाता है और सूखे पदार्थोंका चार पलका
कुडव होता है ॥ १०३ ॥

चतुष्पलस्तु कुडवः स शरावार्द्धं
उच्यते । मानिकाष्टौ पलान्येव धरणं
दशभिः पलैः ॥ १०४ ॥

चार पलका कुडव होता है उसको अर्द्धशराव भी
कहते हैं, आठ पलकी मानिका होता है, दस पलका
धरण होता है ॥ १०४ ॥

द्राभ्यां पलाभ्यां प्रसृतं तच्च षोडशकं
विदुः । खारी च षोडश द्रोणा दश-
भिर्धरणैस्तुला ॥ १०५ ॥

दो पलका एक प्रसृत होता है, उसको षोडशक भी
कहते हैं, षोडश द्रोणकी एक खारी होती है, दश
धरणकी एक तुला होती है ॥ १०५ ॥

चत्वारः कुडवः प्रस्थः स शरावद्वयं
मतम् । पलानि चैव विद्वद्भिः षोड-
शैव प्रकीर्तिताः ॥ १०६ ॥ प्रस्थाश्च-
त्वार एव स्युराठकोऽष्टशरावकः ।
कंसः स एव विज्ञेयः स तु पात्रं च
पण्डितैः ॥ १०७ ॥ अपि मानविदो
ह्येष चतुष्पष्टिपलो मतः । चत्वारश्चा-
ठको द्रोणः स द्वात्रिंशच्छरावकः
॥ १०८ ॥ शूर्पाद्धं नल्वणं चैव कलशो
घट एव च । अयं च पलसंख्यातः
षट्पञ्चाशच्छतद्वयम् ॥ १०९ ॥

चार कुडवका एक प्रस्थ होता है, उसको शराव-
द्वय और षोडशपल भी कहते हैं । चार प्रस्थका
एक आठक होता है, उसको अष्टशराव, कंस, पात्र,
और चतुःपष्टि पल भी कहते हैं । चार आठकका
एक द्रोण होता है, उसको द्वात्रिंशच्छरावक, शूर्पाद्धं,
नल्वण, कलश और घट कहते हैं । इसकी पलसंख्या
२५६ होती है ॥ १०६ ॥ । १०७ ॥ १०८ ॥
॥ १०९ ॥

द्रोणद्वयं च शूर्पः स्यात्स कुम्भ
इति चोच्यते । चतुष्पष्टिशरावोऽसौ
व्यवहारार्थमुच्यते ॥ ११० ॥

दो द्रोणका एक शूर्प होता है । उसको कुम्भ और
चतुष्पष्टि शराव भी व्यवहारके लिये कहते हैं ॥ ११० ॥

स द्वादशपलानीह शतानां पञ्च
चोच्यते । गोणी द्रोणाश्च चत्वारः
स शरावशतं मतम् । अष्टाविंशति
संयुक्तं सर्वथा सूक्ष्मबुद्धिभिः ॥ १११ ॥
पलानां तु सहस्रैकं चतुर्विंशतिकं
स्मृतम् । प्रस्थादिमानमारभ्य द्रव्या-
देर्द्विगुणान्वितम् । कुडवोऽपि क्वचि-
द्वृष्टं यथा दन्तीघृते स्मृतम् ॥ ११२ ॥

इसकी पलम्बख्या ५१२ होती है, चार द्रोणकी एक गोणी है, उसके एकसौ अङ्गुल (१२८) शराव तथा १०२४ पल होते हैं, प्रस्थसे लेकर आगेको जो द्रव्य लेना हो तो दुगुना लेना चाहिये जैसे कि, दन्ती-वृत्तसे लिये जाते हैं । ॥ १११ ॥ ११२ ॥

वैणवाक्षायसादीनां भाण्डं तु चतुरं-
गुलम् । विस्तीर्णमथ वृत्तं च कुडवं
तं विनिर्दिशेत् ॥ ११३ ॥

- कुडवपरिमाण--बॉस, काठ और लोहे आदिका चार अंगुल चौड़ा, चार अंगुल गहरा ऐसा एक गोल पात्र सामान्य वस्तु डालनेके लिये बनाया जाता है उसको कुडव परिमाण कहते हैं ॥ ११३ ॥

त्याज्य रोगी ।

चण्डः साहसिको भीतः कृतघ्नो
व्यग्र एव च । यो वैद्यनृपतिद्वेषा
सद्वेषा शोकपीडितः ॥११४॥ याद-
च्छिको मुखूर्ध्व विहीनः करणैश्च
यः । वैरी वैद्यविदग्धश्च श्रद्धाहीनः
सुशङ्कितः ॥ ११५ ॥ भिषजामभिधे
यश्च नोपक्रम्या भिषग्विधाः । एतानु-
पाचरन्वैद्यो बहून्दोषानवाप्नुयात् ११६
एभ्याऽन्ये समुपक्रम्या नराः सर्वैरु-
पक्रमैः । नैव कुर्वीत लोभेन चिकि-
त्सापुण्यविक्रयम् । ईश्वराणां वसु-
मतां लिप्सेतार्थन्तु वृत्तये ॥ ११७ ॥

जो अत्यन्त क्रोधी, दुस्साहसके काम करनेवाला, डरपोक, उपकारको न माननेवाला, हठ करनेवाला, वैद्य, सज्जन और राजासे द्वेष करनेवाला, शोकसे पीडित, स्वेच्छाचारी, मरनेकी इच्छा करनेवाला, मिथिल इन्द्रियों वाला, वैरी, वैद्यपर विश्वास नहीं करनेवाला, श्रद्धारहित और वैद्यके वचनोमे शंका करनेवाला ऐसे रोगीकी वैद्यको चिकित्सा नहीं करनी चाहिये तथा जो वैद्यके समान हो और जो वैद्यको ठगनेवाला हो ऐसे रोगीकी भी चिकित्सा नहीं करे क्योंकि ऐसे रोगियोंकी चिकित्सा करनेसे वैद्य अत्यन्त अपवादको प्राप्त होता है, इनके सिवा अन्यान्य सर्व प्रकारके

रोगियोंकी विधिपूर्वक चिकित्सा करे. वैद्य लाभमें निर्धन पुरुषोंसे धन लेकर चिकित्साके पुण्यको बंचे नहीं किन्तु जो मनुष्य ममत्त्व और धनवान् हो उनसे आजीविकाके लिये धन लेनेकी इच्छा करे ११४ ॥ ११५ ॥ ११६ ॥ ११७ ॥

चिकित्सितं शरीरं यो न निष्क्रा-
णाति दुर्मतिः । स यत्करोति
सुकृतं तत्सर्वं भिषगश्नुते ॥ ११८ ॥

जो दुष्टवृद्धि मनुष्य, अपने शरीरकी चिकित्सा कराता है और वैद्यको उसका कुछ बदला नहीं देता तो उसका उस शरीरके द्वारा किया हुआ समस्त पुण्य वैद्यको प्राप्त होजाता है ॥ ११८ ॥

क्वचिदर्थः क्वचिन्मैत्री क्वचिद्धर्मः
क्वचिद्विशः । कर्माभ्यासः क्वचिच्चैव
चिकित्सा नास्ति निष्फला ॥ ११९ ॥

चिकित्सा करनेसे कहीं धनकी प्राप्ति होती है, कहीं मित्रता होती है, कहीं धर्म, कहीं यज्ञ और कहीं क्रिया करनेका अभ्यास बढ़ता है, इसप्रकार चिकित्सा करना कहीं भी निष्फल नहीं होता ११९ ॥

कुर्वैलः कर्कशः स्तब्धो ग्रामीणः
स्वयमागतः । शस्यते यश्च वैद्यो न
धन्वन्तरिसमो यदि ॥ १२० ॥

जो वैद्य मैले कुर्वैले बखवाला, अप्रिय वचन बोलनेवाला, मूर्ख, व्यवहारमें अकुशल, ग्रामका रहने-वाला, विना बुलाये अपने आप आयाहुआ धन्वन्तरिके समान हो तो भी उसका आदर नहीं होता ॥ १२० ॥

स वैद्यो नहि योऽसाध्यानारभेत
चिकित्सितुम् । अवैद्यजीविकासि-
द्धिः स्याद्घुणाक्षरवत्क्वचित् ॥ १२१ ॥

जो असाध्यरोगकी चिकित्सा करना आरम्भ करता है वह वैद्य नहीं अर्थात् कुर्वैद्य है। ऐसे कुर्वैद्यकी जीविकासिद्धि कदाचित् घुणाक्षरन्यायके समान होजाती है ॥ १२१ ॥

मापात्रं विद्महे मेहे यवमद्यं मदा-
त्यये । अबुद्धिपूर्वमप्याशु सेवितं
भेषजं भवेत् ॥ १२२ ॥

जैसे कि मूर्ख मनुष्य भी शीघ्र ही विद्वग्रह और प्रमेहरोगमें प्रथम मापात्र और मदात्यय रोगमें जौकी मदिगा सेवन करे तो औषधि होजाती है ॥ १२२ ॥

आयुर्वेदोदितां युक्तिं कुर्वन्ति स्वहि-
ताय ये । पुण्यायुर्बुद्धिसंयुक्ता नीरो-
गास्तु भवन्ति ते ॥ १२३ ॥

जो मनुष्य अपने हितके लिये आयुर्वेदोक्त युक्तिको पालन करते है वे पुण्य, आयु और बुद्धियुक्त होकर सदैव नीरोग रहते है ॥ १२३ ॥

आयुर्वेदलक्षण ।

आयुर्हिताहितं व्याधेर्निदानं शमनं
तथा । विद्यते यत्र विद्वद्भिः स
चायुर्वेद उच्यते ॥ १२४ ॥

जिसमे आयुका हित, अहित, रोगका निदान और उसके शमनके उपाय विद्यमान हो उस शास्त्रको विद्वान् आयुर्वेद कहते हैं ॥ १२४ ॥

रोगगणना । -

ज्वरोऽतिसारो ग्रहणी चाशोऽजीर्णं
विपूचिका । अलसः सविलम्बी च
कृमिरुक्पाण्डुकामलाः ॥ १२५ ॥
हलीमकं रक्तपित्तं राजयक्ष्मा उरः-
क्षतम् । कासो हिक्का तथा श्वासः
स्वरभेदस्त्वरोचकः ॥ १२६ ॥
छर्दिस्तृष्णा च मूर्च्छा च रोगाः
पानात्ययादयः । दाहाख्यस्त्वपरो-
न्मादश्चापस्मारोऽनिलामयः ॥ १२७ ॥
वानरक्तमुरुस्तम्भ आमवातोऽथ
शूलरुक् । पङ्क्तिजं शूलमानाह
उदावर्तोऽथ गुल्मरुक् ॥ १२८ ॥
हृद्रोगो मूत्रकृच्छ्रं च मूत्राघातं तथा-
ऽश्मरी । प्रमेहो मधुमेहश्च पिटिकाश्च
प्रमेहजाः ॥ १२९ ॥ मेदोदोषोदरं
शोथो वृद्धिश्च गलगण्डकः।गण्डमाला
ततो भ्रान्तिर्बुद्धं श्लीपदं तनः ॥ १३० ॥
विद्राधिव्रणशोफो च द्वौ व्रणौ भग्नना-

डिको । भगन्दरोपदंशौ च शूकदोष-
स्त्वगामयः ॥ १३१ ॥ शीतपित्तमुद्वेदश्च
कोठश्चैवाम्लपैत्तिकः । विसर्पश्च स-
विस्फोटः सरोमन्ती मसूरिका ॥ १३२ ॥
क्षुद्रास्यकर्णनासाद्विच्छरःस्त्रीबालका-
मयाः । विषं चेत्ययमेवात्र ज्ञेय
उद्देशसंग्रहः ॥ १३३ ॥

(सब रोगोंकी गणना लिखते हैं:—)

ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, अर्श (वचासीर),
अजीर्ण, विपूचिका, अलस, विलम्बिका, कृमिरोग,
पाण्डुरोग, कामला, हलीमक, रक्तपित्त, राजयक्ष्मा,
उरःक्षत, कास (खाँसी), हिक्कारोग, श्वास, स्वर-
भेद, अरोचक, छर्दि (वमन), तृपारोग, मूर्च्छारोग,
पानात्ययादिरोग, दाहरोग, उन्मादरोग, अपस्मार,
वातरोग, वातरक्त, ऊरुस्तम्भ, आमवात, शूलरोग,
पंक्तिशूल, आनाहरोग, उदावर्त, गुल्मरोग, हृद्रोग,
मूत्रकृच्छ्र, मूत्राघात, अश्मरीरोग, प्रमेह, मधुमेह,
प्रमेहपिटिका, मेदोरोग, उदररोग, शोथरोग, अंड-
वृद्धि, गलगण्डरोग, गण्डमाला, ग्रंथिरोग, अर्बुदरोग,
श्लीपदरोग, विद्राधि, व्रणशोफ, व्रणरोग, नाडीव्रण,
भग्नरोग, भगन्दर, उपदंशरोग, शूकदोष, कुटादि
त्वचाके रोग, शीतपित्त, उद्वेद, कोठरोग, अम्लपित्त,
विसर्परोग, रोमान्तिका, मसूरिका, क्षुद्ररोग, मुन्वरोग,
कर्णरोग, नासारोग, नेत्ररोग, शिरोरोग, स्त्रीरोग,
बालरोग, विषरोग ये रोग इस ग्रंथमें कहे जायेंगे
॥ १२५ ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ १२८ ॥ १२९ ॥ १३० ॥ १३१ ॥
॥ १३२ ॥ १३३ ॥

इति निदानाधिकारः ।

अथ ज्वराधिकारः ।

ज्वरः समस्तरोगाणां यतो राजनि
विश्रुतः । अतः प्रथमतस्तस्य प्रव-
क्ष्यामि चिकित्सितम् ॥ १३४ ॥

ज्वर सबल रोगोंका राजा है ऐसा सुना जायेंगे,
इस कारण सबसे पहले ज्वरकी चिकित्सा करना
है ॥ १३४ ॥

दक्षाम्पानसंक्रुद्धरुद्रनिःश्वाससम्भवः।
ज्वरस्यऽपृथा पृथग्द्वन्द्वः सङ्घातागन्तुजः
स्मृतः ॥ १३५ ॥

ज्वर दक्षके अपमानसे क्रोधित हुए महादंबके स्वा-
ससे उत्पन्न हुआ है और वह पृथक् (वातज, पित्तज,
कफज), द्वन्द्वज—(वातपित्तज, कफपित्तज, वात-
कफज), त्रिदोषज—(सन्निपात जिसमे वात, पित्त,
कफ तीनों मिले हुए हो) और आगन्तुज—(अभि-
घातादिजनित) इन भेदोंसे आठ प्रकारका है ॥ १३५ ॥

दुष्टाहारविहाराभ्यां दोषा ह्यामाश-
याश्रयाः । वहिर्निरस्य कोष्ठाग्निं
ज्वरदाः स्यू रसानुगाः ॥ १३६ ॥

दुष्ट आहार और दुष्ट विहारके करनेसे वातादि दोष
आमाशयमें स्थित होकर कोठेके अग्निकी गरमीको
बाहर निकालकर रसमें प्राप्त होकर ज्वरको उत्पन्न
करते हैं ॥ १३६ ॥

श्रमोऽरनिर्विष्वर्णत्वं वैरस्यं नयनप्लवः ।
इच्छाद्वेषो मुहुश्चापि शीतवातात-
पादिषु ॥ १३७ ॥ जृम्भाङ्गमर्दो गुरुता
रोमहर्षोऽरुचिस्तमः । अप्रहर्षश्च शीतं
च भवत्युपत्स्यति ज्वरे ॥ १३८ ॥

विना परिश्रम किये श्रम मालूम होना, कहीं चित्त
न लगना, शरीरका रंग बदल जाय, मुखमें नीरसता,
नेत्रोंमें जल भर आना, शीतवायु और धूपमें वारंवार
इच्छा और वारंवार अप्रीतिक्रा होना, जम्भाङ्गोंका
आना, अंगोंका टूटना, शरीरमें भारीपन, रोमांच
होना, भोजनमें अरुचि, अंधकारदर्शन, हर्षका नाश
और शीतका लगना ये ज्वरके पूर्वरूप हैं अर्थात्
ज्वरके पहिले ये लक्षण होते हैं ॥ १३७ ॥ १३८ ॥

सामान्यतो विशेषात्तु जृम्भात्यर्थं स-
मीरणात् । पित्तान्नयनयोर्दाहः कफा-
दन्नारुचिस्तथा ॥ १३९ ॥

✓ ये सामान्य पूर्व लक्षण कहे, अब कुछ विशेष
कहते हैं । वातज्वरमें प्रथम जम्भाई अधिक आती है,
पित्तज्वरमें नेत्रोंमें दाह होता है और कफज्वरमें अन्नसे
अरुचि होती है ॥ १३९ ॥

सर्वलिङ्गसमावायः सर्वदोषप्रको-
पजे । रूपैरन्यतराभ्यां च संसृष्टैर्द्वि-
न्द्वजं विदुः ॥ १४० ॥

त्रिदोषज ज्वरमें तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं
और द्वन्द्वजज्वरके पूर्वमें अन्यान्य दोषोंके मिले हुए
लक्षण होते हैं ॥ १४० ॥

ज्वरस्य पूर्वरूपेषु वर्तमानेषु हृदिभान्।
पाययेत्सर्पिरेवार्त्तं ततः स लभते
सुखम् ॥ १४१ ॥ विधिर्मारुतजेष्वेष
पित्तिकेषु विरेचनम् । मृदुप्रच्छर्दनं
तद्वत्कफजेषु विधीयते । सर्वं त्रिदोष-
जेपूक्तं यथादोषं विकल्पयेत् ॥ १४२ ॥
स्वेदावरोधः सन्तापः सर्वाङ्गग्रहणं
तथा । युगपद्यत्र रोगे तु स ज्वरो
व्यपदिश्यते ॥ १४३ ॥ दोषैः सर्वैर्गर्व-
हुधा समुद्भ्रान्तेर्विमार्गगैः । विक्षिप्य-
मानोऽन्तरग्निर्भवत्याशु वहिश्चरः १४४
रुणाद्धि चाप्यपां धालुं यस्मात्तस्मा-
ज्ज्वरातुरः । भवत्यत्युष्णगात्रश्च स्वि-
द्यति न च सर्वशः ॥ १४५ ॥ परिषे-
कान्प्रदेहांश्च स्निहान्संशोधनानि च ।
दिवास्वप्नं व्यवायश्च व्यायामं
शिशिरं जलम् । क्रोधप्रवातभोज्यांश्च
वर्जयेत्तरुणज्वरी ॥ १४६ ॥

✓ अब ज्वरके पूर्वरूपकी चिकित्सा कहते हैं । वात-
ज्वरके पूर्वरूपमें रोगीको घी पिलावे तो उसको सुख
प्राप्त होता है । पित्तज्वरके पूर्वरूपमें मृदु विरेचन घे
और कफके पूर्वरूपमें मृदु वमन करावे । त्रिदोषज्वर
के पूर्वरूपमें दोषोंकी कल्पना कर यथादोषानुसार
कर्म करे । ज्वरके लक्षण—पसीनेका न आना,
सन्तापका होना और सम्पूर्ण अंगोंमें पीडाका होना
ये सब लक्षण जिसमें एक साथ हो उसको ज्वर कहते
हैं । वातादिदोष वेगवान् हो इधर उधर फैलकर एवं
तिर्यग्गामी होकर भीतरी अग्निको बाहर निकाल
देते ह । उस अग्निके निकलनेसे पसीना रुक जाता है
इसकारण सब शरीर गरम हो जाता है तब उसको
ज्वरातुर कहते हैं । ज्वरमें परिषेक (जलादिकसे शरीरको

सीचना) चन्दनादिका शरीरमे लेप करना, तैल घृतादिक स्निग्ध पदार्थोंका सेवन, वमन, विरेचनादि कर्म, दिनमें सोना, मैथुन करना, दंड कसरत आदि करना, शीतल जलका सेवन, क्रोध, वायुका सेवन और भोजन ये सब, नवीन ज्वरवाला मनुष्य त्याग देवे ॥ १४१ ॥ १४२ ॥ १४३ ॥ १४४ ॥ १४५ ॥ १४६ ॥

**शोथश्छर्दिर्मदो मूर्च्छा तृष्णा भ्रम-
मरोचकः । प्राप्नोत्युपद्रवानेतान्परि-
षेकादिसेवनात् ॥ १४७ ॥**

यदि नवीन ज्वरवाला उपरोक्त परिषेकादि सेवन करे तो उसके शोथ (सूजन), वमन, मद्, मूर्च्छा, तृषा, भ्रम और अरुचि आदि उपद्रव उत्पन्न होते हैं ॥ १४७ ॥

**ज्वरितं ज्वरमुक्तं वा भोजयेत्पुष्पो-
नम् । श्लेष्मक्षये प्रवृद्धोष्मा बलवान-
नलस्तदा । वेगापायेऽन्यथा तद्धि
ज्वरवेगाभिवर्द्धनम् ॥ १४८ ॥**

जो ज्वरसे पीड़ित हो अथवा जो ज्वरसे मुक्त हो गया हो उसको अवश्य हलका भोजन कराना चाहिये। क्योंकि कफके क्षय होनेमें गरमी बढ़ जाती है और उससे जठराग्नि प्रबल हो जाती है इसलिये वेगके हलके होने पर पथ्य देना चाहिए नहीं तो दोष वेग को प्राप्त होकर ज्वरके वेगको बढ़ा देते हैं ॥ १४८ ॥

**ज्वरितो हितमशनायाद्यप्यस्याऽरु-
चिर्भवेत् । अत्रकाले ह्यभुञ्जानः क्षी-
यते म्रियतेऽथवा ॥ १४९ ॥**

अतएव ज्वरवाले मनुष्यको यदि अरुचि भी हो तो भी हितकारक पदार्थोंको भक्षण करावे, क्योंकि अन्न देनेके समय भोजन नहीं करनेसे ज्वररोगी क्षीण हो जाता है अथवा मर जाता है ॥ १४९ ॥

**गुर्वाभिष्यन्द्यकाले च ज्वरी नाद्या-
त्कथञ्चन । न तु तस्याहितं भुक्तमा-
युषे वा सुखाय च १५० ॥**

ज्वररोगीको भारी और अभिष्यन्दी पदार्थोंका भोजन तथा विना समय कदापि भोजन नहीं खाना चाहिये, क्योंकि वह उसकी आयु और सुखके लिए हितकारक नहीं होता ॥ १५० ॥

**आनद्धः स्तिमितैर्दोषैर्यावन्तं काल-
मातुरः । तावत्कालन्तु लघ्वन्नमश्री-
यात्तु विरिक्तवत् ॥ १५१ ॥**

जबतक ज्वररोगी दोषोंसे घिरा रहे तबतक उसके हलका अन्न विरिक्त (जुलाव लिए हुए) के समान देना उचित है ॥ १५१ ॥

**सातत्यात्स्वाद्यभावाच्च पथ्यं द्वेष्य-
त्वमागतम् । कल्पनाविधिभिस्तैः
प्रियत्वं गमयेत्पुनः ॥ १५२ ॥**

बहुत दिनोतक निरंतर सेवन करने और स्वादिष्ठ न होनेसे पथ्य द्वेषभावको प्राप्त हो जाता है—अर्थात् उससे अरुचि हो जाती है तब उसको वैद्य अनेक प्रकारकी कल्पनाओंसे सुन्दर करे ॥ १५२ ॥

**अरुचौ मातुलुङ्गस्य केसरं साज्यसै-
न्धवम् । धात्रीद्राक्षासितानां वा
कल्कमास्थेन धारयेत् ॥ १५३ ॥**

इति तरुणज्वरविधिः ।

जो ज्वरमें अरुचि हो तो विजैरे नीबूकी केशर को धी और सैधे नोनमें मिलाकर अथवा आमले, दाख और मिश्री इनके कल्कको मुखमें धारण करे ॥ १५३ ॥

**विनापि भेषजैर्व्याधिः पथ्यादेव निव-
र्तते । न तु पथ्यविहीनस्य भेषजानां
शतैरपि ॥ १५४ ॥**

केवल पथ्य सेवन करनेसे ही विना औषधके भी रोग नष्ट हो जाते हैं किन्तु कुपथ्य सेवन करने वाले मनुष्यके सैकड़ों औषधियोंके सेवन करनेसे भी आरोग्य नहीं होते ॥ १५४ ॥

**शालयो रक्तशाल्याद्याः शस्यन्ते
षष्टिकादयः । यवाग्वोदनलाजार्थं
ज्वरितानां ज्वरापहाः ॥ १५५ ॥**

शालिधान, लाल शालिधान, पष्टिकधान (साठी) ये सब धान ओदन (भात), खीले और यवागू बनानेके लिये लेवे । ओदन (भात) और खीलेकी यवागू ये सब ज्वररोगियोंके ज्वरको हरनेवाले हैं ॥ १५५ ॥

सुङ्गान्मसूरांश्चणकान्कुलित्यान्समकुष्ठ-
कात् । यूषार्थं यूषसात्म्यानां ज्वरि-
तानां प्रकल्पयेत् ॥ १५६ ॥

मूंग, मसूर, चने, कुलथी और मोठ ये यूषके
लिए देने चाहिए । इनमेंसे जौनसा यूष । ज्वररोगीको
सात्म्य (माफिक) होवे वही उसको देना चाहिए ॥ १५६ ॥

पटोलपत्रं सफलं कुलकं कारवेल्कम् ।
ककोटकं कठिलं च विद्याच्छाकं ज्वरे
हितम् ॥ १५७ ॥

पटोलपत्र, पटोलफल, मीठे परवल, करेला,
ककोडा और पुनर्नवा इनका शाक ज्वरमें हित-
कारी है ॥ १५७ ॥

लावान्कपिञ्जलानेणांश्चकोरानुपचक्र-
कान् । सकुरङ्गान्कालपुच्छान्हरि-
णान्पृषताञ्छशान् । प्रदद्यान्नांससा-
त्म्यानां ज्वरितानां ज्वरापहान् ॥ १५८ ॥

लवा, कपिजल (तीतर), एण (काला हिरन),
चकोर, चकवा, कुरंग, कालपुच्छ, पृषतमृग और
शशक (खरगोस) इन जीवोंका मांस (मांस
भोजी) ज्वररोगीको देना चाहिये । परन्तु जिस
रोगीको जिस जीवका मांस सात्म्य (माफिक) हो वही
उसको देना चाहिये, ये ज्वरको हरनेवाले हैं, जो मांस
नहीं खाते उनके लिये यह विधि नहीं है ॥ १५८ ॥

न कषायं प्रशंसन्ति नराणां तरुण-
ज्वरे । कषायेनाकुलीभूता दोषा जेतुं
सुदुस्तराः ॥ १५९ ॥

नवीन ज्वरवाले रोगियोंको कषाय नहीं देना
चाहिये क्योंकि कषायसे दोष आकुलित हो जाते हैं
फिर उनको जीतना अत्यन्त दुस्तर हो जाता है ॥ १५९ ॥

दोषा वृद्धाः कषायेण स्तम्भितास्त-
रुणज्वरे । स्तम्भ्यन्ते न विपच्यन्ते
कुर्वन्ति विषमज्वरम् ॥ १६० ॥

नवीन ज्वरमें कषायके देनेसे दोष वृद्धिको प्राप्त
होकर स्तम्भित हो जाते हैं, स्तम्भित दोष न पचते
और न शमन होते हैं किन्तु विषम ज्वरको उत्पन्न
करते हैं ॥ १६० ॥

न च्यवन्ते न पच्यन्ते कषायेस्तम्भिता
मलाः । तिर्यग्विमार्गमाः स्थित्वा
घोरं कुर्युर्नवज्वरम् ॥ १६१ ॥

कषायसे स्तम्भित हुए दोष न निकलते हैं और न
पचते हैं किन्तु तिर्यग्मार्गी होकर घोर नवीन ज्वर
को उत्पन्न करते हैं ॥ १६१ ॥

आमाशयस्थो हत्वाग्निं साधो मार्गान्
पिधापयन् । विद्धाति ज्वरं घोरं
तस्माल्लङ्घनमादिशेत् ॥ १६२ ॥

वातादिदोष आमाशयमें स्थित होकर आमके
साथ मिलकर जठराग्निको नष्ट कर शरीरके स्रोत
को रोक करके ज्वरको उत्पन्न करते हैं इसकारण
आमको पचनेके लिये, जठराग्निको दीपन करनेके
लिये और स्रोतको शुद्ध करनेके लिये ज्वरमें अवश्य
लंघन कराने चाहिये ॥ १६२ ॥

लङ्घनेन क्षयं नीते दोषे संशुक्षिते
ऽनले विज्वरत्वं लघुत्वं च क्षुब्ध्वास्यो-
पजायेत ॥ १६३ ॥

लंघन करनेसे वातादि दोष क्षय होकर जठराग्नि
दीपन होती है तथा ज्वरकी हीनता, लघुता और क्षुब्धता
उत्पन्न होती है ॥ १६३ ॥

शरीरलाघवकरं यद्रव्यं कर्म वा
पुनः । तल्लङ्घनमिति ज्ञेयं बृंहणं तु
पृथग्विधम् ॥ १६४ ॥

जो द्रव्य या कर्म शरीरमें लघुता उत्पन्न करे
उसको लंघन कहते हैं और बृंहण इसके पृथक् अर्थात्
विपरीत है ॥ १६४ ॥

बलाविरोधेनाथैनं लङ्घनेनोपपाद-
येत् । बलाधिष्ठानमारोग्यं यदर्थो हि
क्रियाक्रमः ॥ १६५ ॥

बैधको चाहिये कि, इस प्रकार लंघन करावे
जिससे रोगीके शरीरका बल नष्ट न हो, क्योंकि
बलके अधीन आरोग्य है, जिस आरोग्यके लिये यह
सब क्रियाकल्प कहा गया है ॥ १६५ ॥

तद्धि मारुतक्षुत्तृष्णाशुखंशोषभ्रमा
न्विते। कार्यं न बाले वृद्धे वा गर्भिण्यां

न च दुर्बले । न तथाध्वश्रमक्रोधकाम-
शोकभवे ज्वरे ॥ १६६ ॥

वह लंघन-वातरोगी, तृपासे पीडित, क्षुधासे पीडित, मुखगोपी, भ्रमरोग, बालक, वृद्ध, गर्भिणी स्त्री, दुर्बल मनुष्य और मार्गके चलनेसे थके हुए मनुष्यको तथा श्रम, क्रोध, काम और शोकसे उत्पन्न हुए ज्वरमें नहीं कराने चाहिए ॥ १६६ ॥

सद्यो भुक्तस्य वा जाते ज्वरे सामे
विशेषतः । वमनं वमनार्हस्य पथ्य-
मित्याह वाग्भटः ॥ १६७ ॥

वाग्भटने कहा है कि भोजन करनेके पश्चात् तत्काल ज्वरके आ जाने पर विशेष कर आम ज्वरके होनेपर वमन कराने योग्य रोगीको वमन कराना हितकर है ॥ १६७ ॥

उत्तम लंघन होनेके लक्षण ।

वातमूत्रपुरीषाणां विसर्गे गात्रला-
घवे । हृद्योद्गारकण्ठास्यशुद्धौ तन्द्वा-
क्लमे गते ॥ १६८ ॥ स्वेदं जाते रुचौ
चैव क्षुत्पिपासासहोदये । कृतं लङ्घन-
मादेश्यं निर्व्यथे चान्तरात्मानि ॥ १६९ ॥

अपानवायु, मूत्र और मलका यथानियमसे निर्गत होना, देहमें हलकापन, हृदय, डकार, कंठ और मुख इनका शुद्ध होना, तन्द्रा और ग्लानिका न होना, पसीनोका आना, रुचिका उत्पन्न होना, क्षुधा और तृष्णाका एक साथ लगना और आत्मामें किसी प्रकारकी पीडा न होना, ये सब लक्षण उत्तम लंघन होनेवाले रोगीके है ॥ १६८ ॥ १६९ ॥

अत्यंत लंघन होनेके दोष ।

पर्वभेदोऽङ्गमर्दश्च कासः शोषो मुखस्य
च । क्षुत्प्रणाशो रुचिस्तृष्णा दौर्बल्यं
श्रोत्रनेत्रयोः ॥ १७० ॥ मनसः
संभ्रमोऽभीक्षणमूर्ध्ववातः क्लमो हृदि ।
देहाग्निबलहानिश्च लङ्घनेऽतिकृते
भवेत् ॥ १७१ ॥

अत्यन्त लंघन करनेके दोष-शरीरकी सब सन्धियोंमें पीडा, शरीरमें हडफूटन, खोसी, मुखगोप, क्षुधाका नाश, अरुचि और तृष्णा, क्लान और नेत्रोंमें

दुर्बलता, मनमें वारस्वार भ्रमका होना, सदैव ऊर्ध्ववातके उपद्रवोंका होना, हृदयमें ग्लानिका होना, देह, जठराग्नि और बलका नाश होना; ये सब लक्षण अत्यन्त लंघन करनेसे होते हैं ॥ १७० ॥ १७१ ॥

ज्वरमें जलपानविधि ।

तृप्यतः सलिलं क्षोष्णं दद्याद्वातक-
फज्वरे । तद्धि मार्दवकृदोषस्रोतसां
शीतमन्यथा ॥ १७२ ॥

✓ वात कफज्वरमें तृष्णा लगनेपर रोगीको उष्ण जल देना चाहिये, गरम जल दोषोंको शमन और शरीरके स्रोतोंको मृदु करनेवाला है । शीतल जल इससे विपरीत गुणोंवाला है ॥ १७२ ॥

पित्तमद्यविषोत्थेषु पित्तकैः शृतशी-
तलम् । सुस्तापर्पटकोशीरचन्दनोदी-
च्यनागैरः । शृतं शीतं जलं दद्या-
च्चृद्दाहज्वरशान्तये ॥ १७३ ॥

✓ पित्तरोग, मद्यविकार और विषके उत्पन्न हुए रोगोंमें कडवी औषधियोंके द्वारा जलको औटाकर पश्चात् शीतल करके पीनेको देवे । नागरमोथा, पित्तपापडा, खस, लालचन्दन, सुगन्धवाला और सोठ इनको जलमें औटावे, जब औट चुके तब खूब शीतल करके छान लेवे. यह जल तृष्णा, दाह और ज्वरको शान्त करनेके लिये देवे ॥ १७३ ॥

पादशेषः कषायः स्यात् प्रसाध्यः
षोडशोऽम्भसि । कथितोऽन्तः षडङ्गा-
दिर्न निषिद्धो नवज्वरे ॥ १७४ ॥

जिसमें काथ द्रव्य सोठहगुने जलमें पकाकर चतुर्थांश शेष रखे जाय उसको कषाय कहते हैं । इसकारण षडङ्गादि जल तरुणज्वरमें निषिद्ध नहीं है ॥ १७४ ॥

ज्वरमें पेया देनेकी विधि ।

लङ्घिताय हिता पेया यथास्वं
पाचनेः कृता । दीपनी पाचनी लघ्वी
ज्वरात्तानां ज्वरापहा ॥ १७५ ॥

लंघन करनेवाले रोगीके लिये पेया अत्यन्त हितकारी है, वह यथादोषानुसार पाचन द्रव्योंसे बनाई हुई दीपनी, पाचनी, हलकी और ज्वररोगीके ज्वरको हरनेवाली है ॥ १७५ ॥

लघुना पञ्चमूलेन पिप्पल्या सह धान्यया । महत्या पञ्चमूल्याथ व्याघ्री दुस्पर्शगोक्षुरैः ॥ १७६ ॥ संसिद्धं भिषगाहारं प्रयुञ्जीत तथाक्रमम् । वातपित्ते श्लेष्मापित्ते कफवाते त्रिदोषजे ॥ १७७ ॥

लघुपंचमूल-- (शालिपर्णी, पृश्निपर्णी, छोटो कटेरी, बड़ी कटेरी और गोखरू) के द्वारा पेया बनाकर वातपित्तज्वरमे देवे । पीपल और धनियेके द्वारा बनाई पेया कफपित्तज्वरमें हितकारी है । बृहत्पंचमूल--(वेल, ज्योनाक, कुम्भेर, पाठर, अरणी) के द्वारा सिद्ध की हुई पेया कफवातज्वरमे देवे कटेरी, जवासा और गोखरू इनके काथके द्वारा सिद्ध कियेहुए अन्नको त्रिदोषज्वरमे देवे ॥ १७६ ॥ ॥ १७७ ॥

वाते वा सकफे पित्ते सामे वा तरुणज्वरे । आद्यमण्डं प्रशंसन्ति पटोलमगधान्वितम् ॥ १७८ ॥

↓ वातज्वर, कफज्वर अथवा पित्तज्वर, आमज्वर, किवा तरुणज्वरमे प्रथम परवल और पीपलके द्वारा सिद्ध किया हुआ मंड देना अत्यन्त हितकारी है ॥ १७८ ॥

पेयां वा रक्तशालीनां वस्तिपार्श्वशिरोरुजि । श्वदंष्ट्राकण्टकारिभ्यां सिद्धां ज्वरहरीं पिबेत् ॥ १७९ ॥

लाल शालिधानाकी पेयाको वस्ति, पार्श्वरोग और शिरोरोगमे देवे । गोखरू और कटेरीके द्वारा सिद्ध की हुई पेया ज्वरमे देवे ॥ १७९ ॥

विबद्धवर्चाः सयवां पिप्पल्यामलकैः शृताम् । सर्पिष्मतीं पिबेत्पेयां ज्वरदोषानुलोमिनीम् ॥ १८० ॥

↓ मलबद्धतामे-जौ, पीपल और आमलोंके द्वारा सिद्ध की हुई पेया पान करे । ज्वर और वातादि दोषोंको अनुलोमन करनेके लिये पेयामे घी मिलाकर पीवे ॥ १८० ॥

कासे श्वासे च हिक्कायां पञ्चमूलीशृतां पिबेत् ॥ १८१ ॥

↓ खाँसी, श्वास और हिक्कारोगमे पंचमूलके द्वारा सिद्ध की हुई पेया पीवे ॥ १८१ ॥

बलावृक्षाम्लकालाम्लकलशीधावनाशृताम् । अस्वेदनिद्रानृष्णार्त्तः पिबेत्पेयां सशर्कराम् ॥ १८२ ॥

✓ खिरैटी, इमली, बेर, आमले, पृश्निपर्णी, शालिपर्णी इनकी पेया बनाकर मिश्री मिलाकर पीनेसे पसीनेका न आना, निद्रा और तृपाकी पीडा दूर होती है ॥ १८२ ॥

क्लिन्नां यवागूं मन्दाग्निपिपासार्त्तान्नपाययेत् । मदात्यये मद्यनित्ये ग्रीष्मे पित्तकफोत्थिते । ऊर्ध्वगे रक्तपित्ते च यवागूर्न हिता ज्वरे ॥ १८३ ॥

✓ मंदाग्नि और तृपातुर रोगीको यवागू नहीं देनी चाहिये तथा मदात्ययरोगी, सदैव मदिरा पीनेवाले मनुष्यको ग्रीष्मऋतु, पित्तकफोद्भवरोग, ऊर्ध्वगत रक्तपित्तरोग और ज्वररोगमे यवागू नहीं देनी चाहिये ॥ १८३ ॥

तत्र तर्पणमेवाग्रे देयं स्याल्लाजसक्तुभिः । ज्वरापहैः फलरसैर्युक्तं समधुशर्करैः ॥ १८४ ॥

ज्वरमे प्रथम खील्लोके सक्तुओंके साथ ज्वरनाशक फलोका रस, गहद और मिश्री मिलाकर तर्पण दे ॥ १८४ ॥

स्याद्धितः साधितो यूषस्त्वष्टादशगुणे जले । शृतं पञ्चगुणे भक्तं विलेपे च चतुर्गुणे ॥ १८५ ॥ काथ्यद्रव्याञ्जलिं क्षुण्णं श्रपयित्वा जलाढके । अर्धशृत्तेन तेनाथ यवाग्वाद्येव कल्पयेत् ॥ १८६ ॥

✓ अठारह गुने जलमे सिद्ध किया हुआ थूप हितकारी है तथा भातको पाँचगुने जलमे सिद्ध करना चाहिये और विलेपी चौगुने जलमे सिद्ध करना चाहिये । काथ द्रव्य चार पल लेकर खूब कूटकर एक आढक जलमे पकावे, जब आधा भाग जल बाकी रह जाय तब उसकी यवागू कल्पना करे ॥ १८५ ॥ १८६ ॥

वृद्धवैद्याः पलं द्रव्यं ग्राहयन्त्याढके जले । भेषजस्यातिबाहुल्यात् कदाचिदरुचिर्भवेत् ॥ १८७ ॥

बृहद्वंश एक पल द्रव्यको लेकर एक आडक जलमें पकाते हैं । कड़ाचिन् औषधिकी बाहुल्यतासे अस्मि होजावे तो- ॥ १८७ ॥

तदप्सु शूनशीतासु षडङ्गादि प्रयु-
ज्यन्ते । कर्षनात्रं नतो द्रव्यं साधये-
त्प्रस्थिकेऽम्भासि । अर्धशृतं प्रयोक्तव्यं
पानपेयादिसंविधौ ॥ १८८ ॥

✓पडंगादिके द्वारा औटाकर स्वयं शीतल किया हुआ जड़ पीनेको देवे । एक कर्ष औषधि लेकर एक प्रस्थ जलमें पकावे । जत्र आधा जल बाकी रह जाय तत्र उसको पान पेयादिके काममें लावे ॥ १८८ ॥

कर्षार्थं पिप्पलाशुण्ड्योः कल्कद्रव्यस्य
वा पलम् । त्रिनीय पाचयेद्युक्त्या
वारिप्रस्थेन चापरान् ॥ १८९ ॥

पीपल और सोण आधा २ कर्ष और कल्क द्रव्य एक पल लेकर विधिपूर्वक एक प्रस्थजलमें पकावे ॥ १८९ ॥

यूषांश्च रसकांश्चैव कल्केनानेन साध-
येत् । विल्वश्रमाणो घृततैलभृष्टो
यूषो रसो वाप्युपकल्पनीयः ॥ कषा-
यपानपथ्यात्रैर्द्रादशाहेऽतिलङ्घिते ।
सर्पिर्दद्यात्कफे क्षीणे वानपित्तोत्तरे
ज्वरे ॥ १९० ॥

✓ फिर इस कल्कके साथ यूष और रसादि सब सिद्ध करे । घृत और रसादिको एक पल तेल अथवा घृतादिमें भूनना चाहिये, बारह दिन लंघन करनेके पश्चान् वातापित्तज्वरमें कफके क्षीण होनेपर काथ, पान और पथ्यादिके साथ घृत देना चाहिये ॥ १९० ॥

पक्केषु दोषेष्वमृतं तद्विषोपममन्यथा ।
दशाहात्परतो दाने ज्वरोपद्रवदृष्टि-
कृत ॥ १९१ ॥

✓ घृतदस दिनके पश्चात् ज्वरकी एक अवस्थामें देनेसे अमृतके समान गुण करता है, अपक अवस्थामें विषके समान अवगुणोंको उत्पन्न करता है तथा ज्वरके उपद्रवोंको बढ़ाता है ॥ १९१ ॥

बहुदोषस्य मन्दाग्नेः समरावात्परे
ज्वरे । लङ्घनाम्बुयवागूर्भिर्यदा दोषो
न पच्यते ॥ १९२ ॥

✓ यदि बहुत दोषवाले और मंदाग्निवाले रोगीके सात दिनके पश्चान् ज्वर रहे और उसमें लंघन, उष्ण जल तथा यवागू आदिके देनेसे भी दोष न पचे तो- ॥ १९२ ॥

तदा तं मुखवैरस्यतृष्णारोचकनाश-
नैः । ज्वरघ्नैः पाचनेर्हृद्यैः कषायैः
समुपाचरेत् ॥ १९३ ॥

✓ उसको मुखकी विरसता, तृषा, अरुचि और ज्वर-नाशक तथा हृद्यको हितकारी ऐसे काथरूपी जरन्न पाचन दे ॥ १९३ ॥

✓ आमज्वरके लक्षण ।

लालाश्लेकहृल्लासहृदयाशुद्धचरोच-
काः । निद्रालस्याविषाकास्यवैरस्यं
गुरुगात्रता ॥ १९४ ॥ क्षुन्नाशो बहु-
भृत्रत्वं स्तब्धता बलवाञ्ज्वरः । आम-
ज्वरस्य लिङ्गानि न दद्यात्तत्र भेष-
जम् ॥ १९५ ॥ भेषजं ह्यामदोषस्य
भूयो वर्धयति ज्वरम् । शोधनं शम-
नीयं वा करोति विषमज्वरम् ॥ १९६ ॥

✓ आमज्वरके लक्षण-मुखसे लारका गिरना, उद-कारका आना, हृद्यमें ग्लानि, अरुचि, निद्राका अधिक आना, आलस्य, दोषोंका अच्छे प्रकारसे नहीं पचना, मुखमें विरसता, शरीरमें भारीपन, क्षुधाका नाश, बहुत पेशावका आना, देहमें जडता और ज्वरका बलवान् होना ये सब आमज्वरके लक्षण है । आम-ज्वरमें औषध नहीं देना चाहिये, आमज्वरमें औषध देनेसे ज्वरकी वृद्धि करती है तथा शोधन और शमन औषध देनेसे विषमज्वरको उत्पन्न करता है ॥ १९४ ॥ ॥ १९५ ॥ १९६ ॥

आमज्वरमें औषध देनेसे हानि ।

दापयेदोषहरणं मोहादामज्वरे तु
यः । स सुतं कृष्णसर्पं वा कराग्रेण
परामृशेत् ॥ १९७ ॥

✓ जो आमज्वरमें मोहके वश होकर दोषनाशक औषध देता है, वह सोते हुए काले साँपको अपने हाथसे छूकर जगाता है ॥ १९७ ॥

पच्यमान ज्वरके लक्षण ।

ज्वरवेगोऽधिका तृष्णा प्रलापश्वासनभ्र-
माः । मलप्रवृत्तिरुत्क्लेशः पच्यमानस्य
लक्षणम् ॥ १९८ ॥

✓ ज्वरका वेग अधिक हो, तृषा, प्रलाप, श्वास,
भ्रम, मलमूत्रादिकी प्रवृत्ति और उबकाई हो तो
पच्यमान ज्वरका लक्षण जानना चाहिये ॥ १९८ ॥

निरामज्वरके लक्षण ।

क्षुक्षामता लघुत्वं च गात्राणां ज्वर-
मार्दवम् । दोषप्रवृत्तिरुत्साहो निरा-
मज्वरलक्षणम् ॥ १९९ ॥

✓ अब निरामज्वरके लक्षण कहता हूँ--क्षुधाका लगना,
शरीरमें लघुता, ज्वरका मंद होना, वातादि दोषोकी
प्रवृत्ति होना और उत्साह होना, ये निरामज्वरके
लक्षण जानने ॥ १९९ ॥

ज्वरमें औषध देनेका समय ।

मृदौ ज्वरे लघौ देहे प्रबलेषु मलेषु
च । पक्कं दोषं विजानीयाज्ज्वरे देयं
तदौषधम् ॥ २०० ॥

जब ज्वर मंद होजाय, शरीर हलका होजाय, मल
चलायमान होजाय तब दोषोको पक जानकर औषध
देवे ॥ २०० ॥

दोषप्रकृतिवैकृत्यादितेषां पक्कलक्षणम् ।
पक्कोऽप्यनिर्हतो दोषो देहे तिष्ठन्महा-
त्ययम् । विषमं वा ज्वरं कुयर्थाद्दल-
व्यापदमेव वा ॥ २०१ ॥

वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषोकी प्रकृतिकी
विकृति हो जाय तब पक्कके लक्षण जानने । जो दोष
पक होगया हो, परंतु शरीरमेसे न निकाला गया हो
तो वह शरीरमे रहता हुआ अत्यंत हानि करता है या
तो विषमज्वरको उत्पन्न करता है अथवा बलका
नाश करता है ॥ २०१ ॥

ज्वर पचनेकी अवधि ।

वातिकः सप्तरात्रेण दशरात्रेण
पैत्तिकः । श्लैष्मिको द्वादशाहेन ज्वरः
पार्कं नियच्छति ॥ २०२ ॥

१ "दोषप्रवृत्तिग्राहो निरामज्वरलक्षणम्" इत्यपि पाठ ।

✓ वातज्वर सात दिनमें, पित्तज्वर दस दिनमें और
श्लैष्मिक ज्वर बारह दिनमें पचता है ॥ २०२ ॥

पैत्तिके वा ज्वरे देयमल्पकालसमु-
त्थिते । अचिरज्वरितस्यापि भेषजं
दोषपाकतः ॥ २०३ ॥

✓ अल्पकालके उत्पन्न हुए पित्तज्वरमें दशवे दिन
औपधि देनी चाहिये और जो वही पित्तज्वर बहुत
कालका उत्पन्न हुआ हो तो दोषोके पचनेपर औपधि
देनी चाहिये ॥ २०३ ॥

पाययेदातुरं सामं पाचनं सप्तमेऽहनि ।
शमनेनाथवा दृष्ट्वा निरासं समुपा-
चरेत् ॥ २०४ ॥

✓ आमज्वरवाले रोगीको वैद्य सातवे दिन पाचन
औपधि देवे और निरामज्वरवाले रोगीको तत्काल
शमनीय औपधि देवे ॥ २०४ ॥

पीताम्बुर्लङ्घितः क्षीणोऽजीर्णो भुक्तः
पिपासितः । न पिबेदौषधं जन्तुः
संशोधनमथेतरत् ॥ २०५ ॥

जिसने तत्काल जल पिया हो, जो लघन करनेसे
क्षीण होगया हो, अजीर्ण रोगी, जिसने तत्काल
भोजन किया हो और प्याससे व्याकुल ऐसे मनुष्योको
कदापि संशोधन (वमन, विरेचन) औपधि नहीं
देवे ॥ २०५ ॥

वातज्वरके लक्षण ।

वेपथुर्विषमो वेगः कण्ठौष्ठपरिशोष-
णम् । निद्रानाशः क्षवस्तम्भो गात्राणां
रौक्ष्यमेव च ॥ २०६ ॥ शिरो-
हृद्गात्ररुग्बक्त्रवैरस्यं गाढवित्कता ।
शूलाध्माने जृम्भणं च भवत्यनिलजे
ज्वरे ॥ २०७ ॥

✓ अब वातज्वरके लक्षण कहते हैं--कंप होना,
ज्वरका विषम वेग, कंठ और होठोका सूखना,
निद्राका नाश, छीकका न आना, शरीरमे रूखापन,
शिर, हृदय और शरीरमे पीडा, मुखमे विरसता,
मलका गाढा होना, शूल और अफारेका होना
तथा जम्भाईका आना ये सब लक्षण वातज्वरमे
होते हैं ॥ २०६ ॥ २०७ ॥

वातज्वरपर साधारण पाचन ।
नागरं देवकाष्ठं च धान्यकं बृहतीद्व-
यम् । दद्यात्पाचनकं पूर्वं ज्वरितानां
ज्वरापहम् ॥ २०८ ॥

✓सोठ, देवदारु, धनियाँ, कटेरी और बडी कटेरी
इनका पाचन (काथ) बनाकर ज्वरवाले रोगीको
देवे तो ज्वर दूर होता है ॥ २०८ ॥

हिमवाद्भिन्ध्यशैलाभ्यां प्रायो व्याता
वसुन्धरा । सौम्यासौम्यं हिमं हैम-
माग्नेयं वैन्ध्यमौषधम् ॥ २०९ ॥

हिमालय और विन्ध्याचल पर्वतसे प्रायः सम्पूर्ण
पृथ्वी व्याप्त है । हिमालय पर्वतपर उत्पन्न होने
वाली औषधियाँ गीतल और सौम्य होती है एवं
विन्ध्याचल पर्वतपर उत्पन्न होनेवाली औषधियाँ
आग्नेय अर्थात् गरम और असौम्य होती है ॥ २०९ ॥

द्रव्याण्यभिनवान्येव प्रशस्तानि
क्रियाविधौ । ऋते गुडघृतक्षौद्रधान्यकृ-
ष्णाविडङ्गतः ॥ २१० ॥

✓चिकित्सा-कर्ममे सम्पूर्ण द्रव्य नवीन ही लेने
उत्तम होते हैं । परन्तु गुड, घी, शहद, पीपल
और वायडिबंग ये पुराने ही उत्तम होते हैं ॥ २१० ॥

यत्र येन प्रधानेन द्रव्यं समनुगृह्यते ।
तत्संज्ञकः स वै योगो भवतीति
विनिश्चयः ॥ २११ ॥

जिस योगमे जो द्रव्य प्रधानरूपसे ग्रहण किया
जाता है वह योग उसी द्रव्यके नामसे कहा जाता
है ऐसा निश्चय है ॥ २११ ॥

मात्रोत्तमा पलेन स्यात् त्रिभिश्चाक्षैश्च
मध्यमा । जयन्या स्यात्पलार्धेन स्नेह-
काथौषधेषु च ॥ २१२ ॥

स्नेहकाथादि औषधियोंकी एक पलकी मात्रा
उत्तम, तीन कर्पकी मात्रा मध्यम और दो कर्पकी
मात्रा जयन्य होती है ॥ २१२ ॥

१ गुड, घी, शहद कर्पणमे पुराने लेने और वृंहणमें नवीन
लेने चाहिये ऐसा शिष्ट सम्मत है ।

काथद्रव्यपले वारि द्विरष्टगुणभिष्यते ।
चतुर्भागावशिष्टं तु पेयं पलचतुष्ट-
यम् ॥ २१३ ॥

एक पल काथकी औषधि लेकर सोलह गुने जलमें
पकावे, जब चौथा भाग बाकी रह जाय तब उस
चार पल काथको पान करे ॥ २१३ ॥

दीप्तानलं महाकायं पाययेदक्षलिं
जलम् । अन्ये त्वर्द्धं परित्यज्य प्रसृतिं
तु चिकित्सकाः ॥ २१४ ॥

✓जिन मनुष्योंकी जठराग्नि दीपन है, जिनका
शरीर बडा और दृष्ट पुष्ट है उनको एक कुडव परि-
माण काथ देना चाहिये, परन्तु अन्य आचार्य
कहने है कि उनको आधा कुडव परिमाण काथ देना
चाहिये ॥ २१४ ॥

काथत्यागमनिच्छन्तस्त्वष्टभागावशे-
षितम् । पारम्पर्योपदेशेन वृद्धवैद्याः
पलद्वयम् ॥ २१५ ॥

किन्तु अरुचि होनेके कारण प्राचीन वैद्य काथके
भागको पचाकर अष्टावशेष अर्थात् आठवाँ भाग
बाकी रखते है और उस दोपल काथको पिलाते
हैं ॥ २१५ ॥

औषधप्राशनमंत्र ।

ब्रह्मदक्षार्धिरुद्रेन्द्रभूचन्द्रार्कानिला-
दयः । ऋषयः सौषधिग्रामा भूतस-
ङ्गाश्च पान्तु वः ॥ २१६ ॥

ब्रह्मा, दक्ष, आश्विनीकुमार, रुद्र, इन्द्र, पृथ्वी,
चन्द्रमा, सूर्य, वायु आदिदेवता, ऋषि, सन्पूर्ण
औषधियाँ और भूतोंके समूह ये सब तुम्हारी रक्षा
करे ॥ २१६ ॥

रसायनमिवर्षीणां देवानाममृतं य-
था । सुधेवोत्तमनागानां भैषज्यमिद-
मस्तु ते ॥ २१७ ॥

जिस प्रकार ऋषियोंको रसायन, देवताओंको
अमृत और नागोंके लिये सुधा है उसीप्रकार यह
औषधि तुम्हारे लिये गुणकारी हो ॥ २१७ ॥

अथौषधप्राशनविधि ।

तत्रोपविश्य विश्रान्तः प्रसन्नवदने-
क्षणः । औषधान्हेमरजनमृद्राजन-
परिस्थितान् ॥ २१८ ॥ पिबेत्प्रसन्न-
हृदयः पीत्वा पात्रमधोमुखम् । निःक्षि-
प्याचम्य सलिलं ताम्बूलाद्युपयो-
जयेत् ॥ २१९ ॥

प्रसन्न है मुख और नेत्र जिसेके ऐसे रोगीको आरामसे बैठावे । पश्चात् औषधिको सोना चाँदी या मिट्टीके वर्तनमे करके देवे । रोगी उसको पीकर वर्तनको उलटा करके गेर देवे, फिर जल लेकर कुल्ला करके मुखशुद्धिके लिये पान आदिको चावे ॥ २१८ ॥ ॥ २१९ ॥

वीर्याधिकं भवति भेषजमन्नहीनं
हन्यात्तथामयमसंशयमाशु चैव ।
तद्दालवृद्धयुवतीमृदुभिश्च पीतं ग्लानिं
परां समुपयाति बलक्षयं च ॥ २२० ॥

अन्नरहित औषधि अधिक वीर्यवाली होती है और वह निःसंदेह शीघ्र ही रोगको दूर करती है जो उसी अन्नरहित औषधिको बालक, वृद्ध, स्त्री और कोमल प्रकृतिवाले मनुष्य सेवन करे तो उनके ग्लानि उत्पन्न होकर बलका नाश हाता है ॥ २२० ॥

अनुलोमोऽनिलः स्वास्थ्यं क्षुत्तृष्णा
सुमनस्कता । लघुत्वमिन्द्रियोद्धार-
शुद्धिर्जीर्णौषधाकृतिः ॥ २२१ ॥

वायुका अनुलोमगतिसे संचार होना, शरीरमे स्वस्थता, क्षुधा और तृप्ताका लगना, मनकी प्रसन्नता, इन्द्रियोमे हलकापन और शुद्ध उकारका आना, ये औषधि जीर्ण होजानेके लक्षण है ॥ २२१ ॥

औषधशेषे भुक्तं पीतञ्च तथौषधं स
शेषान्ने । न करोति गदोपशमं प्रको-
पयत्यन्यरोगांश्च ॥ २२२ ॥

जो मनुष्य प्रथम औषधिको पीकर पश्चात् उसके ऊपर भोजन करता है अथवा जो प्रथम भोजन कर पश्चात् उसके ऊपर औषधि पीता है वह औषधि उसके रोगको शमन नहीं करती, किन्तु अन्यान्य रोगोंको उत्पन्न करती है ॥ २२२ ॥

शीघ्रं विपाकमुपयाति बलं न
हिस्याद्ब्रान्नावृतं न च मुहुर्वदनात्रिरेति ।
प्राग्भुक्तसेवितमथौषधमेतद्वद दद्याच्च
वृद्धशिशुभीरुवराङ्गनाभ्यः ॥ २२३ ॥

परन्तु वृद्ध, बालक, भीरु (डरफोक) और स्त्री इनको भोजनसे पहिले सेवन कराई हुई औषधि शीघ्र पच जानी है और बलको भी नहीं घटाती, तथा अन्नसे आवृत (आच्छादित) होनेके कारण बारंबार मुखसे भी नहीं निकलती है इस कारण उक्त मनुष्योंको भोजनसे पहले ही औषधि सेवन करानी चाहिये ॥ २२३ ॥

वातज्वरचिकित्सा ।

विल्वदिः पञ्चमूलस्य काथः स्याद्वा-
तिकज्वरे । पाचनं पिप्पलीमूलगुडू-
चीविश्वजोऽथवा ॥ २२४ ॥

वेल, ज्योनाक, कुम्भेर, पादर और अरणी इनका काथ बनाकर अथवा पीपरामूल, गिलोय और सोठ इनका पाचन बनाकर वातज्वरमे दे ॥ २२४ ॥

न शोधयति यद्दोषान्समात्रोदीरय-
त्यपि । समीकरोति विषमांस्तत्संश-
मनमुच्यते ॥ २२५ ॥

जो विगडे दोषोको शुद्ध नहीं करे तथा समान दोषोको बढ़ावे नहीं और विषम दोषोको समान करे उसको संशमन औषधि कहते है ॥ २२५ ॥

किराताब्दामृतोदीच्यबृहतीद्वयगो-
क्षुरैः । सस्थिराकलशीविश्वैः काथो
वातज्वरापहः ॥ २२६ ॥

चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, सुगन्धवाला, कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू, पृष्ठिनपर्णी, जालिपर्णी और सोठ इनका काथ बनाकर पीनेसे वातज्वर दूर होता है ॥ २२६ ॥

पञ्चमूलीबलारास्त्राकुलत्थैः सह
पौष्करैः । पर्वभेदं शिरःकम्पं
निहन्ति पवनज्वरम् ॥ २२७ ॥

✓पंचमूलकी सब औषधिये, खिरैटी, रायसन, कुल्थी और पोहकरमूल इनका काथ बनाकर पान करनेसे सन्धियोंकी पीडा, शिरका काँपना और वातज्वर नष्ट होता है ॥२२७॥

पिप्पली शारिवा द्राक्षा बला चांशु-
मती तथा । एषोऽपि परमः सिद्धो
वातज्वरविनाशनः ॥ २२८ ॥

✓पीपल, उसवा, दाख, खिरैटी और शालिपर्णी
इनका काढा वातज्वरको अवश्य नष्ट करता है ॥२२८॥

द्राक्षा गुडूची काश्मर्यं त्रायमाणा
सशारिवा । निष्काथ्य सगुडं काथं
पिवेद्वातकृते ज्वरे ॥ २२९ ॥

दाख, गिलोय, कुम्भेर, धमार, वनपसा और उसवा
इनके काढेमे गुड मिलाकर वातज्वरमे पीवे ॥२२९॥

दर्भ बलां गोक्षुरकं पिवेत्पादावशेषि-
तम् । शर्कराघृतसंयुक्तं पिवेद्वातज्व-
रापहम् ॥ २३० ॥

✓डाम, खिरैटी और गोखरू इनका चतुर्थांश जेप
अर्थात् सेरभरका पावभर जल वाकी रखकर उसमे
मिश्री और घी मिलाकर वातज्वरमे पानकरे ॥२३०॥

शर्करादाडिमाभ्याश्च द्राक्षादाडिम-
योस्तथा । वैरस्ये धारयेत् कल्कं
गण्डूषश्च तथा हितम् ॥ २३१ ॥

मिश्री और अनार अथवा दाख और अनार इनका
कल्क बनाकर मुखमे गण्डूष (कुल्ला) धारण करनेसे
मुखकी विरसता दूर होती है ॥ २३१ ॥

आमं पचेदनिलजे हितो नित्यं रसौ-
दनः । मुद्गामलकयूषस्तु गाढविट्के
विधीयते ॥ २३२ ॥

✓वातज्वरमे नित्य रसोदनका सेवन करना आमको
पचाता है । वातज्वरमे यदि मलविबन्ध होवे तो मूंग
और आमलोंका थूप देवे ॥ २३२ ॥

इति वातज्वराचिकित्सा ।

पित्तज्वरचिकित्सा ।

—=३३=—

पित्तज्वरके लक्षण ।

तीक्ष्णोष्णदाहतृणमूर्च्छामदास्यकटुता-
भ्रमाः । प्रलापो घ्राणकण्ठौष्ठमुख-
पाकोऽक्षिसाश्रुता ॥ २३३ ॥ शीता-
भिलाषिता पीतमलनेत्रनखत्वचः ।
पित्तोद्गारातिसारौ च पैत्तिकज्वर-
लक्षणम् ॥ २३४ ॥

ज्वरका अत्यंत तीक्ष्ण और उष्ण वेग, दाह, तृषा,
मूर्च्छा, मद, मुखमें कटुता, भ्रम, प्रलाप (बेतुकी बात)
तथा नासिका, कंठ, होठ और मुखका पाक, नेत्रोंमें
आँसुओका भर आना, शीतकी अभिलाषा, मल, नेत्र,
नख और त्वचा इनका पीला होना, पित्तकी डकार
आना और पीला अतिसारका होना ये लक्षण
पित्तज्वरके जानने चाहिए ॥२३३॥२३४ ॥

चिकित्सा ।

दाहवम्यर्दितं क्षामं निरन्नं तृणथा-
न्वितम् । शर्करामधुसंयुक्तं पाययेत्पा-
जतर्पणम् ॥ २३५ ॥

दाह और वमनसे पीडित, कृश, क्षुधा और तृषासे
पीडित ऐसे पित्तज्वरवालेको खीलेके सत्तूमें मिश्री
और सहत मिलाकर सेवन करावे ॥२३५ ॥

कलिङ्गं कटुफलं मुस्तं पाठा कटुकरो-
हिणी । पक्कं सशर्करं पीतं पाच्यं
पैत्तिके ज्वरे ॥ २३६ ॥

✓इन्द्रजौ, कायफल, नागरमोथा, पाठ और कुटकी
इनके काथमे मिश्री मिलाकर पान करे तो पित्तज्वर
दूर हा ॥ २३६ ॥

शर्करामधुरो हन्ति कषायः पैत्तिकं
ज्वरम् । चन्दनोशीरश्रीपर्णीपरूष-
कमधूकजः ॥ २३७ ॥

✓लालचन्दन, खस, कुम्भेर, फालसा और महुएकी
छाल इनके काढेमे मिश्री मिलाकर पीनेसे पित्तज्वर
दूर होता है ॥ २३७ ॥

गुडूची श्रोत्राणां शारिवोत्पलयो-
स्तथा । शर्करामधुरो काथः पीतः
पित्तज्वरापहः ॥ २३८ ॥

गिलोय, पद्माख, लोत्र, अनंतमूल और कमल
या कमलगट्टेकी गिरी इनके काथमे मिश्री डालकर
पान करनेसे पित्तज्वर नष्ट होता है ॥ २३८ ॥

दुरालभापर्पटकप्रियंगुभूनिम्बवासा-
कटुरोहिणीनाम् । जलं पिवेच्छर्करया-
वगाढं तृष्णास्रपित्तज्वरदाहयुक्तः २३९

धमासा, पित्तपापडा, मेहडीके फूल, चिरायता,
अड़सा और कुटकी इनके काथमे खोंड मिलाकर
पीवे तो तृषा, रक्तपित्त और दाहसहित ज्वर दूर
होता है ॥ २३९ ॥

द्राक्षाभयापर्पटकाब्दतित्ता काथं स-
शम्याकफलं विदध्यात् । प्रलापमृ-
च्छाभ्रमदाहमोहतृष्णान्विते पित्तभवे
ज्वरे तु ॥ २४० ॥

दाख, हरज, पित्तपापडा, नागरमोथा, कुटकी
और अमलनासका गूदा इनका काथ बनाकर पीनेसे
प्रलाप, मूर्च्छा, भ्रम, दाह, मोह, और तृषायुक्त पित्त-
ज्वर दूर होता है ॥ २४० ॥

पटोलयवधान्याकमधुकं मधुसंयुतम् ।
हन्ति पित्तज्वरं दाहं तृष्णाश्चैव प्रमा-
थिनीम् ॥ २४१ ॥

पटोलपत्र, इन्द्रजौ, धनियाँ और मुलैठी इनके
काथमे गहद मिलाकर पान करनेसे पित्तज्वर, दाह
और तृषा दूर होती है ॥ २४१ ॥

पटोलयवनिष्कारथो मधुना मधुरी-
कृतः । तीव्रपित्तज्वरोन्मर्दी पानतृड-
दाहनाशनः ॥ २४२ ॥

पटोलपत्र और इन्द्रजौ इनके काथमे गहद डाल-
कर पीवे तो तीव्र पित्तज्वर, तृषा और दाह दूर होती
है ॥ २४२ ॥

गुडूच्यामलकैर्युक्तः केवलो वापि
पर्पटः । पित्तज्वरं हरेत्तूर्जं दाहशो-
पन्नमात्रितम् ॥ २४३ ॥

गिलोय और आमलेका अथवा केवल पित्तपाप-
डेका ही काथ पीनेसे दाह, मुखशोष और भ्रमयुक्त
पित्तज्वर दूर होता है ॥ २४३ ॥

रोध्रोत्पलामृतापन्नशारिवाणां सश-
र्करः । काथः पित्तज्वरं हन्यादथवा
पर्पटोद्भवः ॥ २४४ ॥

लोत्र, कमल, गिलोय, पद्माख और अनंतमूल
इनके काथमे मिश्री मिलाकर पीनेसे पित्तज्वर दूर
होता है । अथवा केवल पित्तपापडेका ही काथ पीनेसे
पित्तज्वर दूर होता है ॥ २४४ ॥

पर्पटामृतधातृणां काथः पित्तज्वरं
जयेत् । द्राक्षाख्ययोश्चापि काश्मर्या
अथवा पुनः ॥ २४५ ॥

पित्तपापडा, गिलोय और आमले इनका काथ
पित्तज्वरको दूर करता है । अथवा दाख, अमलतास
और कुम्भेरका काथ भी पित्तज्वरको दूर करता
है ॥ २४५ ॥

एकः पर्पटकः श्रेष्ठः पित्तज्वरविना-
शनः । किं पुनर्यदि युज्येत चन्दनो-
शीरनागरेः ॥ २४६ ॥

इकला पित्तपापडाही पित्तज्वरका नाश करनेके
लिये उत्तम है । यदि उसमे लालचन्दन, खस और
सोठ मिलाकर दिया जावे तो क्या कहना है २४६ ॥

विश्वपर्पटकोशीरघनचन्दनसाधितम् ।
दद्यात्सुशतिलं वारि तृच्छर्दि-
ज्वरदाहलुत् ॥ २४७ ॥

सोठ, पित्तपापडा, खस, नागरमोथा और लाल-
चन्दन इनका काथ बनाकर खूब गीतल करके पान
करे तो तृषा, वमन, ज्वर और दाह दूर होता
है ॥ २४७ ॥

गुडूची मुस्तधान्याकं मधुकं कटुरो-
हिणी । तृष्णाशूलारुचिच्छर्दिपित्त-
ज्वरहरो गणः ॥ २४८ ॥

गिलोय, नागरमोथा, धनियाँ, मुलैठी और कुटकी
इन औषधियोंका समूह तृषा, शूल, अरुचि, वमन
और पित्तज्वरको नष्ट करता है ॥ २४८ ॥

किरातामृतधान्याकचन्दनोशीर-
पर्पटैः । सपद्मकैः कृतः काथो हन्ति
पित्तभवं ज्वरम् । दाहहृल्लासमरुचि-
मुत्केशवमथुक्कमान् ॥ २४९ ॥

✓ चिरायता, गिलोय, धनियां, लालचन्दन, खस,
पित्तपापडा और पद्माख इनका काथ-पित्तज्वर, दाह,
उबकाई, अरुचि, उत्केश, वमन और कुन (ग्लानि)
को दूर करता है ॥ २४९ ॥

ससितो निशि पर्युपितः प्रातर्धान्या-
कतण्डुलकाथः । पीतः शमयत्यचि-
रादन्तर्दाहं ज्वरं घोरम् ॥ २५० ॥

रात्रिमं धनियेके चावलोको भिजो देवे । पश्चात्
सुवहको काथ बनाकर मिश्री मिलाकर पीनेसे बहुत
दिनेकी भतिरी दाह और घोर ज्वर दूर होता
है ॥ २५० ॥

चन्दनं मधुकं द्राक्षां कटुकां सडुरा-
लभाम् । चन्दनादिगणः प्रोक्तो
हन्यादाहज्वरारुचिम् ॥ २५१ ॥

✓ लाल चन्दन, मुलैठी, दाख, कुटकी और जवासा
इन सब औषधियोंको चन्दनादिगण कहत हैं, यह
चन्दनादिगण दाह, ज्वर और अरुचिको नष्ट
करता है ॥ २५१ ॥

सुद्रानामञ्जलीचूर्णं यष्टीमधुकसाधि-
तम् । पाक्यं शीतकाषायं वा विवे-
त्पित्तज्वरापहम् ॥ २५२ ॥

भृंगका चूर्ण १ कुडव और मुलैठीका चूर्ण १
कुडव; दोनों को मिलाकर काथ बनावे फिर शीतल
हो जाने पर उसको छानकर पीनेसे अथवा उपर्युक्त
चूर्णको रात्रिमं शीतल जलमें भिजाकर सबेरेको
छानकर पीनेसे पित्तज्वर नष्ट होता है ॥ २५२ ॥

द्वित्रैरं धान्यकं सुस्तं चन्दनं मधुय-
ष्टिका । वृषोशीरयुतः काथः शर्करा-
मधुसंयुतः । रक्तपित्तं जयत्युग्रं तृष्णा-
दाहज्वरापहः ॥ २५३ ॥

सुगन्धवाला, धनियाँ, नागरमोथा, चन्दन, मुलैठी,
अडूसा और खस इनके काथमें मिश्री और शहद
मिलाकर पान करनेसे घोर रक्तपित्त, तृषा, दाह
और ज्वर दूर होता है ॥ २५३ ॥

भूनिम्बान्तिविषालोथमुस्तकेन्द्रथवा-
मृताः । वासकं नागरं बिल्वं कषायो
माक्षिकान्वितः । श्वासं कासश्च
विडुभेदं रक्तपित्तज्वरं जयेत् ॥ २५४ ॥

चिरायता, अतीस, लोथ, नागरमोथा, इंद्रजौ,
गिलोय, अडूसा, सोठ और वेलगिरी इनके काथमें
शहद मिलाकर पान करनेसे श्वास, खाँसी, मलभेद
और रक्तपित्तज्वर नष्ट होता है ॥ २५४ ॥

तिक्तावालकभूनिम्बश्यामापर्पटवा-
सकैः । शृतं जलं सितायुक्तं रक्त-
पित्तज्वरं जयेत् ॥ २५५ ॥

✓ कुटकी, सुगन्धवाला, चिरायता, अनंतमूल,
पित्तपापडा और अडूसा इनके काथमें मिश्री मिला-
कर पान करनेसे रक्तपित्तज्वर दूर होता है ॥ २५५ ॥

पथ्यां तैलघृतक्षौद्रैर्लिहेदाहज्वराप-
हाम् । कासासृक्पित्तवीसर्पश्वासान्
हन्ति वमीनपि ॥ २५६ ॥

हरडको पिसकरतेल, घी और शहदके साथ
मिला कर चाटनेसे दाह, ज्वर, खाँसी, रक्तपित्त,
विसर्प, श्वास और वमन दूर होती है ॥ २५६ ॥

हर्म्ये शुभ्राभ्रसंकाशे शशांककरशी-
तले । मलयोदकासित्ते वा सुप्यारिप-
त्तज्वरी नरः ॥ २५७ ॥

मनोहर और अत्यन्त निर्मल आकाशके समान
स्वच्छ चन्द्रमाकी किरणोंसे शीतल और जिसमें
चन्दनादिका जल छिड़का गया हो ऐसे घर्म
पित्तज्वरवाला रोगी जयत करे ॥ २५७ ॥

जिह्वातालुगलक्लोमशोषे मूर्ध्नि च
दापयेत् । केसरं मातुलुङ्गम्य मधुसं-
न्धवसंयुतम् ॥ २५८ ॥

जो जिह्वा, तालु, गला, मुख, कंठ, क्लोम (पिपासास्थान) और मस्तक इन स्थानोंमें शोष हो, तो विजौरे नीचूकी कसरको शहद और सैधेनमकके साथ मिलाकर सेवन करावे ॥ २५८ ॥

हरीतकी प्रियङ्गुश्च पिप्पली लोध्रमेव च । दार्वी हरिद्रातेजोह्वा सक्षौद्रमुख-
धावने ॥ २५९ ॥ एतेन कटुभावाच्च
मुखरोगश्च शाम्यति । वक्त्रं विशदता-
मेति भक्तच्छन्दश्च जायते ॥ सुद्वयूषौ-
दनो देयः सितया पैत्तिके ज्वरे ॥ २६० ॥

हरड, फूलप्रियंगु, पीपल, लोध, दारुहलदी, हलदी और तेजवल इनको जलमें भिजोकर छान लेवे फिर शहदमें मिलाकर वारंवार कुल्ले करे, इस प्रकार मुख धोनेसे मुखकी कटुता और समस्त मुखरोग नष्ट होते हैं तथा मुखमें निर्मलता और अन्नमें रुचि उत्पन्न होती है । पित्तज्वरमें मूँगका थूप और भात खॉडके साथ मिलाकर सेवन करे ॥ २५९ ॥ २६० ॥

इति पित्तज्वरचिकित्सा ।

कफज्वरचिकित्सा ।

कफज्वरलक्षण ।

कासश्वासप्रतिश्यायप्रसेकारुचिच्छ-
द्रयः । निद्रा गुरुत्वं हृष्टासः स्तैमित्यं
मधुरास्यता ॥ २६१ ॥ शीतरोमा-
ञ्चता शौक्ल्यं मलाक्षिकरजत्वाच्च ।
उष्णाभिलाषिता चोति श्लेष्मिकज्वर-
लक्षणम् ॥ २६२ ॥

खाँखी, श्वास, प्रतिश्याय (जुकाम) और परि-
पेक (नासिकामुखादिकसे पानीका गिरना),
अरुचि, वमन, निद्रा और शरीरका भारी होना,
उबकाई आना, भीजे कपड़ेसे ढके हुण्के समान
देहना होना, सुप्तमें मधुरता, शीतका लगना, रोमांच
का होना, मल, नेत्र, नाभ और त्वचाका सफेद होना
और उष्णता (गर्मी) की अभिलाषाका होना ये
कफज्वरके लक्षण जानने ॥ २६१ ॥ २६२ ॥

मातुलुङ्गशिकाविश्वकायस्थाग्रन्थिको-
द्भवम् । कफज्वरेषु सक्षारं पाचनं
वा कणादिकम् ॥ २२३ ॥

विजौरे नीचूकी जड़, सोंठ, हरड और पीपलामूल
इनके काथमें जवाखार डालकर पीनेसे अथवा पिप्प-
ल्यादि पाचन पीनेसे कफज्वर नष्ट होता है ॥ २६३ ॥

त्रिफला त्रिवृता मुस्तं कटुकं सकलि-
ङ्गकम् । पटोलारग्वधं चैव रोहिणी
चित्रकं समम् । काथः क्षौद्रयुतः
श्लेष्मज्वरकासगलामये ॥ २६४ ॥

✓ त्रिफला, निसोत, नागरमोथा, त्रिकुटा, इन्द्रजौ,
पटोलपत्र, अमलतास, कुटकी और चीता इनके
काथमें शहद डालकर कफज्वर, खाँसी और गलरोग
में पावे ॥ २६४ ॥

निम्बविश्वामृताभारुशठी भूनिम्ब-
पौष्करम् । पिप्पली बृहती चैति
काथो हन्ति कफज्वरम् ॥ २६५ ॥

✓ नीमकी छाल, सोंठ, गिलोय, शतावर, कचूर,
चिरायता, पोहकरमूल, पीपल और बडी कटेरी इनका
काथ कफज्वरको नष्ट करता है ॥ २६५ ॥

कुष्ठमिन्द्रयवं मूर्वा पटोलं वापि
साधितम् । पिवेन्मरिचसंयुक्तं
सक्षौद्रं कफजे ज्वरे ॥ २६६ ॥

✓ कूठ, इन्द्रजौ, मूर्वा (चरनहार) और पटोलपत्र
इनके काथमें काली मिर्चका चूर्ण और शहद
मिलाकर पीनेसे कफज्वर नष्ट होता है ॥ २६६ ॥

त्रिफलापटोलवासाछिन्नरुहातिकरो-
हिणीषडग्रन्था । मधुना श्लेष्मसमु-
त्थे दशमूलीवासकस्य वा काथः ॥
मात्राक्षौद्रघृतादीनां काथे स्नेहे सुचू-
र्णवत् ॥ २६७ ॥

त्रिफला, पटोल, अडूसा, गिलोय, कुटकी और
वच इनके काथमें शहद डालकर अथवा दशमूल
और अडूसके काथमें शहद मिलाकर पीवे । काथ
और स्नेहमें शहद और घृतादिकी मात्रा चूर्णक
समान जाननी ॥ २६७ ॥

सतच्छदं गुडूचीं च निम्बं स्फूर्जकमेव
च । काथयित्वा पिबेत्तोयं सक्षौद्रं
कफजे ज्वरे ॥ २६८ ॥

✓सतवन, गिलोय, नीमकी छाल और तैदू इनका
काथ बनाकर और उस काथमें शहद मिलाकर पानिसे
कफज्वर नष्ट होता है ॥ २६८ ॥

आमलक्यभया कृष्णा चित्रकश्चेत्ययं
गणः । सर्वज्वरकफातङ्गे भेदी दीप-
नपाचनः ॥ २६९ ॥

✓आमले, हरड, पपिल और चीता, यह आमलक्या-
दिगण सर्वप्रकारके कफज्वरमे देना चाहिये। यह भेदन,
दीपन और पाचन है ॥ २६९ ॥

तित्तानिम्बाविषाव्योषशक्राह्वाभिः
शृतं जलम् । पिबेत्कफज्वरं घोरं
हन्ति काससमान्वितम् ॥ २७० ॥

✓ कुटकी, नीम, अतीस, त्रिकुटा और इन्द्रजौ इनका
काथ पान करनेस खांसी सहित घोर कफज्वर नष्ट
होता है ॥ २७० ॥

सिन्धुवारदलकाथं कणाठयं कफजे
ज्वरे । जङ्घयोश्च बले क्षीणे कर्णे च
पिहिते पिबेत् ॥ २७१ ॥

सम्हालके पत्तोंके काढेको पीपलका चूर्ण मिलाकर
कफज्वर, जंघाओके बलकी क्षीणता और बधिरतामें
पीवे ॥ २७१ ॥

मुस्तं मधुकबीजानि त्रिफला कटुरो-
हिणी । परूषकाणि निष्काथः कफ-
ज्वरविनाशनः ॥ २७२ ॥

नागरमोथा, महुएके बीज, त्रिफला, कुटकी और
फालसेकी छाल, इनका काथ कफज्वरको नष्ट
करता है ॥ २७२ ॥

चतुर्भद्रावलेहिका ।

कट्फलं पौष्करं कृष्णा शृङ्गी च
मधुना सह । श्वासकासज्वरहरः
श्रेष्ठो लेहः कफान्तकृत् ॥ २७३ ॥

✓ कायफल, पोहकरमूल, पपिल और काकडा-
शृङ्गी इनका चूर्ण करके शहदमे मिलाकर चाटे तो
श्वास, खांसी, ज्वर और कफ दूर होता है ॥ २७३ ॥

लिहेज्वरार्तस्त्रिफलां पिप्पलीं सम-
माक्षिकाम् । कासे श्वासे च मधुना
सर्पिषा च सुखी भवेत् ॥ २७४ ॥

कफज्वरवाला रोगी त्रिफला और पीपलके
चूर्णको शहदमे मिलाकर चाटे तथा खांसी और
श्वासमे येही अवलेह शहद और घीमें मिलाके
चाटे ॥ २७४ ॥

कट्फलं पौष्करं शृङ्गीं मुस्तकं कटुकं
शठीम् । समस्तान्येकशो वापि ।
सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् ॥ २७५ ॥ आर्द्र-
कस्वरसक्षौद्रैर्लिह्यात्कफविनाशनम् ।
शूलानिलारुचिच्छर्दिकासश्वासक्ष-
यापहम् ॥ २७६ ॥

✓ कायफल, पोहकरमूल, काकडासिंगी, नागरमोथा,
त्रिकुटा और कचूर इन सबको समान भाग लेकर
वारीक चूर्ण करके उस चूर्णको अथवा एक २ के
चूर्णको अदरखके रसमे और शहदमे मिलाकर चाटे
तो कफ, शूल, वात, अरुचि, वमन, खांसी और
क्षयरोग दूर होता है ॥ २७५ ॥ २७६ ॥

क्षौद्रोपकुल्यासंयोगः श्वासकासज्व-
रापहः । प्लीहानं हन्ति हिक्काश्च
वालानाश्च प्रशस्यते ॥ २७७ ॥

पीपलके चूर्णको शहदमे मिलाकर चाटे तो श्वास,
खांसी, ज्वर, प्लीहा और हिचकी दूर होती है । यह
वालकोको अत्यन्त हितकारी है ॥ २७७ ॥

कर्षश्चूर्णस्य कल्कस्य गुटिकानाश्च
सर्वशः । द्रवः शुक्त्यावलेहव्यः पात-
व्यश्च चतुर्द्रवैः ॥ २७८ ॥

चूर्ण, कल्क, गुटिका और वाटिकादिको एक एक
तोलाप्रमाण प्रयोग करना चाहिये । लेहन करके
सेवन करना हो तो द्रव पदार्थ (घृत, गहद आदि)
दो तोले प्रमाण और पान करके सेवन करना हो तो
द्रवपदार्थ चैतुने लेने चाहिये ॥ २७८ ॥

भावात् । नास्त्यवस्थानं दोषमश्लिबलं
द्वयः । व्याधिं द्रव्यञ्च कोष्ठञ्च वीक्ष्य
भावां प्रयोजयेत् ॥ २७९ ॥

औषधिकी मात्राका कोई निश्चित नियम नहीं है
किन्तु दोष, अग्नि, बल, अवस्था, व्याधि, औषधि
और कोठा इन सबको अच्छे प्रकारसे देखकर औष-
धिकी मात्रा देवे ॥ २७९ ॥

अजाजीशर्करायुक्तो दाडिमीस्वरसेन
तु । रुचिष्यो मधुना युक्तः कर्तव्यः
कवलप्रहः ॥ २८० ॥ सुङ्गयूषौदनश्चापि
देयः कफसमुत्थिते ॥ २८१ ॥

जीरा, खँड और अनारका स्वरस इनमें ब्रह्म
मिलाकर सुखमें कवल धारण करे । यह रुचिकारक
है । कफज्वरमें मूँगका थूप और भात
देवे ॥ २८० ॥ ॥ २८१ ॥

इति कफज्वरचिकित्सा ।

वातपित्तज्वरचिकित्सा ।

वातपित्तज्वरे देयमौषधं पञ्चमेऽहनि ।
पित्तश्लेष्मज्वरे देयमौषधं सप्तमे
ऽहनि ॥ २८२ ॥ अत ऊर्ध्वं च सप्ताहा-
द्वातश्लेष्मज्वरे पिबेत् ॥ २८३ ॥

वातपित्तज्वरमें पाँचवें दिन औषधि देनी चाहिये,
पित्तकफज्वरमें सातवें दिन औषधि देनी
चाहिये । और वातकफज्वरमें नवमं दिन औषधि
देवे ॥ २८२ ॥ ॥ २८३ ॥

वातपित्तज्वरके लक्षण ।

तृप्या भृच्छा भ्रमो दाहः स्वप्ननाशः
शिरोरुजा । कण्ठास्यशोषो वमथू
रोमहर्षोऽरुचिस्तथा । पर्वभेदश्च जृम्भा
च वातपित्तज्वराकृतिः ॥ २८४ ॥

अत्र वातपित्तज्वरके लक्षण कहने हैं-तृषा, मूर्च्छा,
भ्रम, दाह, निद्राका न आना, शिरमें पीडा, कंठ और
मुखमें शोष, वमन, रोमांचोका होना, अरुचि, मन्धि-

योमें पीडा और जम्भाइयोंका आना ये सब लक्षण
वातपित्तज्वरके जानने ॥ २८४ ॥

चिकित्सा ।

संसृष्टदोषेषु हिनं संसृष्टम्यपाचनम् ।
निद्रिगिधिकावलारास्त्रात्रायमाणामृ-
तायुतेः । मसूरविदलैः काथो वान-
पित्तज्वरं जयेत् ॥ २८५ ॥

द्वन्द्वजदोषोंमें मिश्रित अर्थान् इन २ दोषोंमें कहीं
हुई औषधियोंको मिलाकर पाचनदेवे । कटरी, खिरैटी,
रायसन, त्रायमान, गिलोय और मसूरकी दाल
इतका काथ वातपित्तज्वरको दूर करना है ॥ २८५ ॥

त्रिफलाशाल्मलीरास्त्राराजवृक्षाटसू-
षकेः । शृतमम्यु हरत्याशु वानपित्त-
भवं ज्वरम् ॥ २८६ ॥

त्रिफला, सेमल, रायसन, अमलतास और
अडूसा इतका काथ - वातपित्तज्वरको नष्ट करता
है ॥ २८६ ॥

किराततित्तममृतां द्राक्षामामलकीं
शटीम् । निष्काथ्य पित्तानिलजे तं
काथं सगुडं पिबेत् ॥ २८७ ॥

चिरायता, गिलोय, दाख, आमले और कचूर
इनके काथमें गुड मिलाकर पीनेसे वातपित्तज्वर नष्ट
होता है ॥ २८७ ॥

मधुकादिकाथ ।

मधुकं शारिवा द्राक्षा मधुकं चन्द-
नोत्पलम् । काश्मरीफलकं लोष्ट्रं
त्रिफला पद्मकेशवरम् ॥ २८८ ॥ परू-
षकं मृणालश्च न्यसेदुत्तमवारिणि ।
मधुलाजसितायुक्तं तत्पीतमुषितं-
निशि ॥ २८९ ॥ वातपित्तज्वरं दाहं
तृप्याभृच्छारुचिभ्रमान् । शमयेद्वक्त-
पित्तञ्च जीमूतमिव भारुतः ॥ २९० ॥

मुलैठी, सरिवन, दाख, महुआ, लाल चन्दन, कमल, कुम्भेरका फल, लोध, त्रिफला, कमलकेशर, फालसे और कमठकी नाल इन सबको समानभाग लेकर स्वच्छ जलमें रातको भिजो देवे फिर प्रातःकाल छान कर शहद खीले और मिश्री मिलाकर पीनेसे यह वातपित्तज्वर, दाह, तृषा, मूर्च्छा, अरुचि, भ्रम और रक्तपित्तको नष्ट करता है, जिस प्रकार पवन वादलोके स्फुहको नष्ट कर देता है ॥ २८८ ॥ २८९ ॥ २९० ॥

**विश्वामृताब्दभूनिम्बैः पञ्चमूलीस-
मन्वितैः । कृतः कषायो हन्त्याशु
वातपित्तोत्तरं ज्वरम् ॥ २९१ ॥**

सोठ, गिलोय, नागरमोथा, चिरायता और पंच-
मूलकी समस्त औषधिये, इन सबका काथ बनाकर
पीनेसे शीघ्र ही वातपित्तज्वर दूर होता है ॥ २९१ ॥

**बलाभाङ्गर्यमृतेरण्डचन्दनोशीरपर्पटैः।
उपकुल्याब्दहीवरैः कषायश्च पित्ते-
त्ततः । पर्वभेदशिरःकम्पं वातपित्त-
ज्वरं जयेत् ॥ २९२ ॥**

✓ खिरैटी, भारंगी, गिलोय, अडकी जड़, लाल चन्दन,
खस, पित्तपापड़ा, पीपल, नागरमोथा और सुगंधवाला
इनका काढा सन्धियोंकी पीडा, शिरका कांपना और
वातपित्तज्वरको नष्ट करता है ॥ २९२ ॥

**गुडूची पर्पटं मुस्तं किरातं विश्वभे-
षजम् । वातपित्तज्वरे देयं पञ्चभद्र-
मिदं शुभम् ॥ २९३ ॥**

✓ गिलोय, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, चिरायता और
सोठ यह पंचभद्रनामक काथ वातपित्तज्वरसे देना
चाहिये ॥ २९३ ॥

**नीलोत्पलमुशीराणि बला पञ्चकमेव
च । काश्मरी मधुकं द्राक्षा मधुकं स-
पक्षकम् ॥ २९४ ॥ वैद्यः शीतकषा-
योऽयं वातपित्तज्वरापहः । सप्रलापं
समोहश्च शमयेत्पैत्तिकं ज्वरम् ॥ २९५ ॥**

✓ नीलकमल, नीलोफर, खस, खिरैटी, पद्माख, कुम्भेर,
मुलैठी, दाख, महुआ और फालसे इनका हिम बनाकर
पीवे तो यह वातपित्तज्वरको नष्ट करता है तथा
प्रलाप और सोहशुक्त पित्तज्वर दूर होता
है ॥ २९४ ॥ २९५ ॥

**आरग्वधफलं मुस्तं यष्टीमधुकमेव च ।
उशीरमभया चैव हरिद्रा दारुसाह्व-
या ॥ २९६ ॥ पटोलं पित्तुमन्दश्च
तथा कटुकरोहिणी । एभिः सिद्धः
कषायः स्याद्वातपित्तभवे ज्वरे ॥ २९७ ॥**

✓ अमलतासका गूदा, नागरमोथा, मुलैठी, खस,
हरड, हल्दी, दारुहल्दी, पटोलपात, नीमकी छाल
और कुटकी इनका काथ वातपित्तज्वरसे हितकारी
है ॥ २९६ ॥ २९७ ॥

**कफपित्तहरा मुद्गाः कारवेष्टादय-
स्तथा । प्रायेण न तु तै देया वात-
पित्तोद्भवे ज्वरे । शूलोदावर्त्तविष्टम्भ-
जनका ज्वरवर्धनाः ॥ २९८ ॥**

✓ मूँग, करेला आदि पदार्थ प्रायः कफपित्तनाशक
है अतएव इनको वातपित्तज्वरसे नहीं देना चाहिये,
क्योंकि इनको देनेसे शूल, उदावर्त और विष्टम्भ
इनको उत्पन्न करते है तथा ज्वरको बढ़ाते हैं ॥ २९८ ॥

**दाडिमामलमुद्गानां यूषस्त्वनिलपै-
त्तिके । मुद्गामलकयूषस्तु वातपित्ता-
त्मके हितः ॥ २९९ ॥**

अनार, आमले और मूँगका यूप वातपित्तज्वरसे
देना चाहिये, मूँग और आमलोका यूप भी वातपित्त-
ज्वरसे हितकारी है ॥ २९९ ॥

**महादाहे विधातव्यो यूषश्चणक-
सम्भवः ॥ ३०० ॥**

जो वातपित्तज्वरसे अत्यंत दाह हो तो चनेका यूप
देना चाहिये ॥ ३०० ॥

इति वातपित्तज्वरचिकित्सा ।

पित्तश्लेष्मज्वरचिकित्सा ।

— ३०३ —

पित्तकफज्वरके लक्षण ।

**सुहुर्दाहो सुहुः शीतं स्वेदस्तम्भौ
सुहुर्मुहुः । मोहः कासोऽरुचिस्तृष्णा
श्लेष्मपित्तप्रवर्तनम् । लिप्ततित्तास्थता
तन्द्रा पित्तश्लेष्मज्वराकृतिः ॥ ३०१ ॥**

अत्र कफपित्तज्वरके लक्षण कहते है, वारंवार दाह हो, वारंवार नीत लगे, वारंवार पसीना आवै, वारंवार शरीर जकड़ जावे, वेहोशी हो, खौसी, अरुचि, तृषा, कफ और पित्तका गिरना, मुख कफसे लिपासा रहे तथा पित्तसे मुखमे कढवापन हो और तन्द्रा हो, ये पित्तकफज्वरके लक्षण है ॥ ३०१ ॥

चिकित्सा ।

गुडूची निम्बधन्याकं पद्मकं चन्दना-
न्वितम् । तृष्णादाहज्वरच्छर्दिपित्त-
श्लेष्मज्वरापहः ॥ ३०२ ॥

✓ गिलोय, नीम, धनियाँ, पद्माख और लालचन्दन इनका काथ तृषा, दाह, ज्वर, वमन और पित्तकफज्वरको नष्ट करता है ॥ ३०२ ॥

गुडूची निम्बधन्याकं पद्मकं चन्द-
नानि च । तृष्णादाहारुचिच्छर्दिसर्व-
ज्वरहरो गणः ॥ ३०३ ॥

✓ गिलोय, नीम, धनियाँ, पद्माख और लालचन्दन इन सब औषधियोंका काथ तृषा, दाह, अरुचि, वमन और सर्व प्रकारके ज्वरको हरनेवाला है ॥ ३०३ ॥

पटोलं पिचुमन्दश्च त्रिफला मधुकं
बला । साधितोऽयं कषायश्च पित्त-
श्लेष्मभवे ज्वरे ॥ ३०४ ॥

पटोलपात, नीमकी छाल, त्रिफला, मुलैठी और खिरैठी इनका काढ़ा पित्तकफज्वरमे देना चाहिये ॥ ३०४ ॥

दीपनं कफविच्छेदि पित्तवातानुलो-
मनम् । ज्वरघ्नं पाचनं भेदि सृष्टं
धान्यपटोलयोः ॥ ३०५ ॥

धानियाँ और पटोलपातका काथ-अग्निको दीपन करनेवाला, कफनाशक, पित्त और वातको अनुलो-
मन करनेवाला, ज्वरनाशक, पाचन और भेदक है ॥ ३०५ ॥

पटोलं चन्दनं मूर्वातिकापाठामृता
गणः । पित्तश्लेष्मारुचिच्छर्दिज्वर-
कण्डूविषापहः ॥ ३०६ ॥

पटोलपत्र, चन्दन, चुरनहार, कुटकी, पाठ और गिलोय इनका काथ पित्तकफज्वर, अरुचि, वमन, ज्वर और खुजली तथा विषका नाशक है ॥ ३०६ ॥

सशर्करामक्षमात्रां कटुकामुष्णवा-
रिणा । पीत्वा ज्वरं जयेज्जन्तुः कफ-
पित्तसमुद्भवम् ॥ ३०७ ॥

एक तोला प्रमाण कुटकीके चूर्णको लेकर मिश्री मिलाकर गरम जलके साथ पान करे तो कफपित्तजन्य ज्वर दूर होताहै ॥ ३०७ ॥

त्रिफला त्रायमाणा च मृद्रीका कटु-
रोहिणी । पित्तश्लेष्मज्वरे ह्येषां
कषायो ह्यनुलोमनः ॥ ३०८ ॥

त्रिफला, त्रायमान, दाख और कुटकी इनका काथ पित्तकफज्वरमे अनुलोमन करनेवाला है ३०८ ॥

वासकं पद्मकाष्ठश्च नागरं चन्दना-
मृते । पटोलं धान्यकश्चैव काथो
मधुसमायुतः । कफपित्तज्वरं शूलं
दाहं हन्त्यंग्रिपाणिषु ॥ ३०९ ॥

कुडेकी छाल, पद्माख, सोठ, लालचन्दन, गिलोय, पटोलपत्र और धनियाँ इनके काथमे शहद मिलाकर पान करनेसे कफपित्तज्वर, शूल और हाथ पाँवकी दाह दूर होती है ॥ ३०९ ॥

पटोलं बालकश्चैव मुस्तकं रक्तचन्द-
नम् । पाठा मूर्वामृता शुंठी चोशीरं
कटुरोहिणी । समभागैः शृतं तोयं
सर्वज्वरहरं पिबेत् ॥ ३१० ॥

✓ पटोलपत्र, सुगन्धवाला, नागरमोथा, लाल चन्दन, पाठ, मूर्वा, गिलोय, सोठ, खस और कुटकी इन सबको समान भाग लेकर काथ बनाकर पीनेसे सर्व प्रकारके ज्वर नष्ट होते है ॥ ३१० ॥

सनागरं पर्पटकं पिबेद्वा सदुराल-
भम् । किरातातिलकं मुस्तं गुडूचीं
विश्वभेषजम् । पाठामुशीरं सोदी-
च्यं पिबेच्च ज्वरशान्तये ॥ ३११ ॥

ज्वरघ्नो दीपनश्चैव कषायो दोषपा-
चनः । तृष्णारुचिप्रशमनो मुखवै-
रस्यनाशनः ॥ ३१२ ॥

सोठ और पित्तपापड़ा इनका काथ अथवा धमासा, चिरायता कड़वा, नागरमोथा, गिलोय, सोंठ, पाद, खस और खुगन्धवाला, इनका काथ कफपित्तज्वर-को शमन करनेके लिये पीवे। यह काथ ज्वरनाशक, दीपन, दोषपाचक, तृपा, अरुचि और मुखकी नीर-सताका दूर करता है ॥ ३११ ॥ ३१२ ॥

यवं पर्पटकं धान्यं पटालं निम्बसा-
धितम् । पिबेत्सशर्कराक्षौद्रं पित्तश्ले-
ष्मज्वरापहम् ॥ ३१३ ॥

इन्द्रजौ, पित्तपापड़ा, धानियाँ, पटोलपत्र और नीमकी छाल, इनके काथमें शहद और मिश्री मिलाकर पीवे तो पित्तकफज्वर नष्ट होता है ॥ ३१३ ॥

अमृताष्टक

अमृतेन्द्रयवारिष्ठं पटोलं कटुरो-
हिणी । नागरं चन्दनं मुस्तं पिप्पली-
चूर्णसंयुतम् । अमृताष्टकमित्येतत्पि-
त्तश्लेष्मज्वरापहम् ॥ ३१४ ॥

गिलोय, इन्द्रजौ, नीमकी छाल, पटोलपत्र, कुटकी, साठ, लाल चन्दन और नागरमोथा, इनके काथमें पीपलका चूर्ण डालकर पान करनेसे पित्तकफज्वर नष्ट होता है। इसको आमृताष्टक कहते हैं ॥ ३१४ ॥

कफपित्तवामिकण्डूज्वरवीसर्पदाहनुत् ।
कषायः परिपीतस्तु शृङ्गवेरपटो-
लयोः ॥ ३१५ ॥

अदरख और पटोलपत्रका काथ पान करनेसे कफ, पित्त, वमन, खुजली, ज्वर, विसर्प और दाह दूर होता है ॥ ३१५ ॥

कण्टकार्यादि ।

कण्टकार्यमृता भाङ्गी नागरेन्द्रयवा-
सकम् । भूनिम्बं चन्दनं मुस्तं पटोलं
कटुरोहिणी ॥ ३१६ ॥ कषायं पाययेद्दे-
तत्पित्तश्लेष्मज्वरापहम् । दाहन्तृष्णा-
रुचिच्छर्दििकासहद्रोगशूलनुत् ॥ ३१७ ॥

कटेरी, गिलोय, भारंगी, सोंठ, इन्द्रजौ, जवासा, चिरायता, चन्दन, नागरमोथा, पटोलपत्र और कुटकी इनके काथको पान करनेसे पित्तकफज्वर नष्ट होता है तथा दाह, तृपा, अरुचि, वमन, खोंसी, हृदयरोग और शूल रोग दूर होता है ॥ ३१६ ॥ ३१७ ॥

पञ्चतित्तकाथ ।

क्षुद्रामृताभ्यां सह नागरेण सपुष्करं
चैव किराततित्तम् पिबेत्कषायं
त्वथ पञ्चतित्तं ज्वरं निहन्त्यष्टविधं
समस्तम् ॥ ३१८ ॥

कटेरी, गिलोय, सोठ, पोहकरमूल और चिरायता इनका काथ आठों प्रकारके ज्वरोंको नष्ट करता है ॥ ३१८ ॥

भाङ्गर्यादिगण ।

भाङ्गी पुष्करमूलश्च मुस्तकं कण्टकारि-
का । त्रिकण्टकबृहत्यौ च कर्णिनी-
नागरैः शृतः ॥ ३१९ ॥ एष भाङ्गर्यादिको
नाम्ना पित्तश्लेष्मज्वरापहः । हल्लासा-
रोचकच्छर्दितृष्णादाहविवन्धनुत् ३२० ॥

भारंगी, पोहकरमूल, नागरमोथा, कटेरी, गोखरू, वडी कटेरी, शालिपर्णी, पृश्निपर्णी और सोंठ इनको भाङ्गर्यादिक कहते हैं। यह भाङ्गर्यादिगण पित्तकफ-ज्वरनाशक तथा उवकाई, अरुचि, वमन, तृपा, दाह और विवन्धनाशक है ॥ ३१९ ॥ ३२० ॥

नागरेन्द्रयवं मुस्तं चन्दनं कटुरो-
हिणी । पिप्पलीचूर्णसंयुक्तं कषायन्तु
पिबेन्नरः । भ्रममूर्च्छारुचिच्छर्दिपित्त-
श्लेष्मज्वरापहः ॥ ३२१ ॥

सोंठ, इन्द्रजौ, नागरमोथा, लाल चन्दन और कुटकी इनके काथमें पीपलका चूर्ण डालकर पान करनेसे भ्रम, मूर्च्छा, अरुचि, वमन और पित्तकफ-ज्वर नष्ट होता है ॥ ३२१ ॥

द्राक्षा शम्याकधान्याकं कटुका मुस्त-
ग्रथिकम् । काथं हन्यादुदावर्त्तं शूलं
पित्तकफज्वरम् ॥ ३२२ ॥

दाह, भ्रमलतास, धनियों, कुटकी, नागरमोथा और पीपलामूल इनका काथ उदावर्त, शूल और पित्त-कफज्वरको नष्ट करता है ॥ ३२२ ॥

पटोलयवधान्याकमुद्गामलकचन्दनम्।
पैत्तिके श्लेष्मपित्तोत्थे ज्वरे तृच्छ-
र्दिदाहनुत् ॥ ३२३ ॥

पटोलपत्र, इन्द्रजौ, धनियों, मूँग, आमले और लालचन्दन इनके काथको पित्तज्वर और कफापित्त-ज्वरमे पीनेसे तृषा, वमन और दाह दूर होती है ॥ ३२३ ॥

सपत्रपुष्पवासाया रसः क्षौद्रसिता-
युतः । कफापित्तज्वरं हन्ति सासृक्पित्तं
सकामलम् ॥ ३२४ ॥

पत्ते और फूल सहित अड्डसेका रस निकाल कर पश्चात् उसमें मिश्री और शहद मिलाकर पान करे तो कफ—पित्त—ज्वर, रक्तपित्त और कामला रोग दूर होता है ॥ ३२४ ॥

पटोलं पिचुमन्दश्च त्रिफला मधुकं
यवाः । साधितोऽयं कषायः स्यात्पित्त-
तश्लेष्मभवे ज्वरे ॥ ३२५ ॥

✓पटोलपात, नीमकी छाल, त्रिफला, मुलैठी और इन्द्रजौ इनका काथ पित्त कफज्वरमे देना चाहिये ॥ ३२५ ॥

मुस्तपर्पटकैरातनिर्धूहेण प्रसाधितः ।
कफपित्तज्वरहरो यूषो धान्यपटो-
लयोः ॥ ३२६ ॥

✓नागरमोथा, पित्तपापडा और चिरायता, इनका सिद्ध किया हुआ निर्धूह अथवा धनियों और पटोल-पत्रका यूष कफपित्तज्वरनाशक है ॥ ३२६ ॥

निम्बकोलकयूषस्तु हितः पित्तकफा-
त्मके ॥ ३२७ ॥

✓ नीमकी छाल और पटोलपत्र इनका यूष भी पित्त-कफज्वरमे हितकारी है ॥ ३२७ ॥

इति पित्तश्लेष्मज्वरचिकित्सा ।

वातकफज्वरचिकित्सा ।

वातकफज्वरलक्षण ।

स्तैमित्यं पर्वणां भेदो निद्रा गौरवमेव
च । शिरोग्रहः प्रतिश्यायः कासः
कम्पोऽरुचिस्तथा । सन्तापो मध्य-
वेगश्च वातश्लेष्मज्वराकृतिः ॥ ३२७ ॥

शरीर गीले कपड़ेसे ढकासा मालूम हो, संधियोमे पीडा हो, निद्रा अधिक आवे, देहमें भारीपन, शिरमे पीडा, जुकाम, खाँसी, कम्प, अन्नमें अरुचि, संताप और ज्वरका वेग मध्यम हो, ये वातकफज्वरके लक्षण जानने ॥ ३२७ ॥

चिकित्सा ।

क्षुद्रामृतानागरपुष्कराह्वयैः कृतः
कषायः कफमारुत्तोत्तरे । सश्वासका-
सारुचिपार्श्वरुक्करे ज्वरे त्रिदोषप्रभ-
वेऽपि शस्यते ॥ ३२८ ॥

कटेरी, गिलोय, सोठ और पोहकरमूल, इनका काथ वनाकर कफवातज्वरमें पीवे इससे श्वास, खाँसी, अरुचि, पसलियोंकी पीडा और त्रिदोषजनित ज्वर भी दूर होता है ॥ ३२८ ॥

मुस्तापर्पटकं शुण्ठी गुडूची सदुरा-
लभा । कफवातारुचिच्छर्दिदाहशो-
षज्वरापहः ॥ ३२९ ॥

✓नागरमोथा, पित्तपापडा, सोठ, गिलोय और धमासा, इनका काथ वातकफ, अरुचि, वमन, दाह, शोष और ज्वरको दूर करता है ॥ ३२९ ॥

मातुलुङ्गफलकेसरोद्धृतः सिन्धुजन्म-
मरिचान्वितो मुखे । हन्ति वातकफ-
रोगमास्यगं शोषमाशु जडतामरोच-
कम् ॥ ३३० ॥

विजौरे नींबूका केशर, सैधानोन और मिरच, इनको एकत्र पीसकर मुखमें धारण करनेसे, वातकफजन्य मुखशोष, मुखकी जडता, विरसता और अरुचि शीघ्र दूर होती है ॥ ३३० ॥

आरग्वधग्रन्थिकमुस्तातिकाहरीतकीभिः
क्वथितः कषायः । सामे सशूले
कफवातयुक्ते ज्वरे हितो दीपन-
पाचनश्च ॥ ३३१ ॥

अमलतास, पीपलामूल, नागरमोथा, कुटकी और
हरड़ इनका काथ-आमशूल और कफवातयुक्त ज्वरमें
हितकारक है तथा दीपन और पाचन है ॥ ३३१ ॥

✓ आरोग्यपञ्चक ।

पिप्पली पिप्पलीमूलं चव्यचित्रक-
नागरैः । दीपनीयः शृतो वर्गः कफानिल-
गदापहः ॥ ३३२ ॥

पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता और सोठ इन-
का काथ दीपन और कफवातके रोगोंका नाशक
है ॥ ३३२ ॥

✓ चातुर्भद्रक ।

किराततित्तं मुस्तं च गुडूचीं विश्वभेष-
जम् । चातुर्भद्रकमित्याहुर्वातश्लेष्म-
ज्वरापहम् ॥ ३३३ ॥

चिरायता, नागरमोथा, गिलोय और सोठ इनको
चातुर्भद्रक कहते हैं। यह वातकफके ज्वरको नष्ट करता
है ॥ ३३३ ॥

पिप्पलीभिः शृत तोयमनभिष्यंदि
दीपनम् । वातश्लेष्मविकारघ्नं ज्वरघ्नं
प्लीहनाशनम् ॥ ३३४ ॥

पीपलका काथ-अनाभिघ्यन्दी, दीपन, वातकफके
विकारका नाशक, ज्वरनाशक और प्लीहाको नष्ट
करता है ॥ ३३४ ॥

निम्बामृता विश्वदारु कट्फलं कटु-
की वचा । कषायं पाययेदाशु वातश्ले-
ष्मज्वरापहम् ॥ ३३५ ॥ पर्वभेदः शिरः-
शूलकासारोचकपीडितम् ॥ ३३६ ॥

नीमकी छाल, गिलोय, सोठ, देवदारु कायफल,
कुटकी और वच इनका काढ़ा वातकफज्वर, सन्धि-
योकी पीडा, शिरःशूल, खाँसी और अरुचि इनसे
पीडित मनुष्यको पिलावे ॥ ३३५ ॥ ३३६ ॥

दारुपर्पटभाङ्गर्थब्दवचाधान्यककट्फ-
लैः । सामयाविश्वपूतीकैः काथो हिंशु-
मधूत्कटः ॥ ३३७ ॥ कफवातज्वरे पीतो
हिक्काशोषगलग्रहान् । श्वासकासप्र-
मेहांश्च हन्यात्तरुमिवाशनिः ॥ ३३८ ॥

✓ देवदारु, पित्तपापडा, भारंगी, नागरमोथा, वच,
धनियाँ, कायफल, हरड़, सोठ और दुर्गन्धकरंज
इनके काथसे हींग और शहद डालकर पीवे तो कफ-
वातज्वरमें पिया हुआ हिक्का, शोष, गलग्रह, श्वास,
खाँसी और प्रमेह इतने उपद्रवोंको नष्ट करता है
जैसे वृक्षको वज्र नष्ट कर देता है ॥ ३३७ ॥ ३३८ ॥

दशमूलिरसः पीतः कणाठश्च कफा-
निले । अविपाकेऽतिनिद्रायां पार्श्व-
रुक्श्वासकासके ॥ ३३९ ॥

कफवातज्वरमें दशमूलके काथमें पीपलका चूर्ण
डालकर पीनेसे ज्वर, अजीर्ण, अतिनिद्रा, पसलीकी
पीडा, श्वास और खाँसी दूर होती है ॥ ३३९ ॥

✓ दशमूल ।

पण्यौ बृहत्यौ गोकण्टो बिल्वोऽग्निम-
थनोऽरलुः । काश्मरी पाटला चैति
सन्निपातहरो गणः ॥ ३४० ॥

शालिपर्णी, पृश्निपर्णी, कटेरी, वडी कटेरी, गोखुरु,
बेलगिरी अरणी, श्योनाक, कुम्भेर और पाटल इन
औपाधियोंके समूहको दशमूल कहते हैं, यह दशमूल
सन्निपातनाशक है ॥ ३४० ॥

तृष्णान्विते वातकफार्तिशूले सश्वा-
सकासारुचिबद्धविट्के । हितं जलं
दीपनपाचनश्च पटोलशुण्ठीयवपिप्प-
लीनाम् ॥ ३४१ ॥

पटोलपत्र, सोठ, इन्द्रजौ और पीपल, इनका
काथ तृषायुक्त वात-कफरोग, शूल, श्वास, खाँसी,
अरुचि और मलबद्धता इनमें हितकारक, दीपन
और पाचन है ॥ ३४१ ॥

पीनसश्वासबाधिर्ये जङ्घापर्वस्थि-
शूलानि । कफवातज्वरे स्वेदं कारयेत्तं
विधानवितं ॥ ३४२ ॥

पीनस्रोग, श्वास, वधिरता, जंवा, संधि और अस्थिशूल तथा कफवातज्वरमे विधि जाननेवाला स्वेद कर्म करावे ॥ ३४२ ॥

वालुकास्वेद ।

खर्परभृष्टपटास्थितकाञ्जिकसंसिक्तवालुकास्वेदः । शमयति वातकफामय-मस्तकशूलाङ्गभंगादीन् ॥ ३४३ ॥

एक खीपडेमें वालुको भरकर उसको खूब गरम करके रोगीके समीप धरे और रोगीको वस्त्रसे ढक देवे । पश्चात् वालुके ऊपर काँजीके छीटे देदेकर प्रसीना निकाले । यह वालुकास्वेद--वातकफके रोग, शिरकी पीडा और सब शरीरकी पीडाको शांत करता है अथवा वालुको खीपडेमे खूब तपाकर पश्चात् उसकी कपड़ेमें पोटली बनाकर उस पोटली को काँजीमे भिजोकर स्वेद देवे, इसको भी वालुका स्वेद कहते हैं ॥ ३४३ ॥

स्रोतसां मार्दवं कृत्वा नीत्वा पावक-माशयम् । हत्वा वातकफस्तम्भं स्वेदोज्वरमपोहति ॥ ३४४ ॥

वालुकास्वेद--शरीरके स्रोतोको मृदु अर्थात् शुद्ध करता है, अग्न्याशयको यथास्थानमें स्थापित करता है, वातकफकी रतम्भताको और ज्वरको दूर करता है ॥ ३४४ ॥

पुष्करमूलयूषस्तु वातश्लेमादिके हितः ।

वातकफज्वरमे पोहकरमूलका यूष हितकारक है ।

इति वातकफज्वरचिकित्सा ।

सन्निपातचिकित्सा ।

सन्निपातनिदान ।

वैरोधिकैरन्नपानैरजीर्णाध्यशनेन च । व्यामिश्रसेवनाच्चापि सन्निपातः प्रकु-प्यति ॥ ३४५ ॥

विरुद्ध (समयविरुद्ध, संयोगविरुद्ध, स्वभाव-विरुद्ध) ऐसे अन्न और पानको सेवन करनेसे, अजीर्णमें भोजन करनेसे अथवा भोजन पर भोजन

करनेसे या विना समय भोजन करनेसे और अनेक प्रकारके मिश्रित पदार्थोंके सेवन करनेसे सन्निपात कुपित होते हैं ॥ ३४५ ॥

अब सन्निपातके लक्षण कहते हैं ।

क्षणे दाहः क्षणे शीतमस्थिसन्धि-शिरोरुजा । संस्त्रावे कलुषेरक्ते निर्भुग्ने चापि लोचने ॥ ३४६ ॥ सस्वनां सरुजौ कर्णौ कण्ठः शूकैरिवावृतः । तन्द्रा मोहः प्रलापश्च कासः श्वासोऽरु-चिर्भ्रमः ॥ ३४७ ॥ परिदग्धा खरस्पर्शा जिह्वा स्रस्तांगता परम् । ष्टिवनं रक्त-पित्तस्य कफेनोन्मिश्रितस्य च ॥ ३४८ ॥ शिरसो लोठनं तृष्णा निद्रानाशौ हृदि व्यथा । स्वेदमूत्रपुरीषाणां चिराद्दर्शनमल्पशः ॥ ३४९ ॥ कृशत्वं नातिगात्राणां सततं कण्ठकूजनम् । कोठानां श्यावरक्तानां मण्डलानाश्च दर्शनम् ॥ ३५० ॥ मूकत्वं स्रोतसां पाको गुरुत्वमुदरस्य च । चिरात्पाकश्च दोषाणां सन्निपात ज्वराकृतिः ॥ ३५१ ॥

✓क्षणमें दाह हो, क्षणमें शीत लगे, हड्डा, संधि (जोड़) और शिरमें पीडा हो, नेत्र आसूयुक्त कलुपित (गँदले), लाल और टेढ़े हो, कानोंमें शब्द और पीडा हो, कंठ काटोसे घिरा हुआ हो, तन्द्रा (ऊँचना), मोह (बेहोशी), प्रलाप (वृथा बकवाद), खाँसी, श्वास, अरुचि और भ्रम हो, जीभ अग्निसे जलीहुई सी मालूम हो तथा खरखरी हो, सम्पूर्ण अंग शिथिल हो जायँ, कफ मिले हुए रक्त और पित्तको थूके, शिरको इधर उधर लुढ़कावे, तृषा हो, निद्रा न आवे, हृदयमें पीडा, प्रसीना, मूत्र और मल ये बहुत कालमें थोड़े २ निकले, शरीर अत्यन्त कृश (दुबला) न हो, निरन्तर कंठ बोले, शरीरमें काले, पीले और लाल मिले रङ्गके गोल २ चकत्ते पड जायँ, मूकता (गूगापन) हो, कान नासिकादि शरीरके स्रोतोका पकना, उदरमें भारी-पन और वातादि दोषोका बहुत कालमें पकना ये सब सन्निपातज्वरके लक्षण जानने चाहिये ॥ ३४६ ॥ ३४७ ॥ ३४८ ॥ ३४९ ॥ ३५० ॥ ३५१ ॥

दोषे विबद्धे नष्टेऽग्नौ सर्वसंपूर्णलक्षणः ।
सन्निपातज्वरो साध्यः कृच्छ्रसाध्य-
स्ततोऽन्यथा ॥ ३५२ ॥

✓ जिसमें सर्वदोष बढ़े हुए हों, जठराग्नि नष्ट हो गई हो और सम्पूर्ण लक्षण मिलते हों वह सन्निपात ज्वर असाध्य है—और इससे अन्यथा अर्थात् दोष बढ़े न हो, अग्नि कुछ दीपन हो और थोड़े लक्षण हो तो वह कृच्छ्रसाध्य है ३५२ ॥

वातपित्ताधिक बन्धु सन्निपात
ज्वरके लक्षण ।

वातपित्ताधिको यस्य सन्निपातश्च
कुप्यति । तस्य ज्वरो मदस्तृष्णासुख-
शोषप्रमीलिकाः । आध्मानारुचित-
न्द्राश्च कासश्वासभ्रमक्लमाः । मुनिभि-
र्बन्धुनामायं सन्निपात उदाहृतः ३५३ ॥

जिसेके वातपित्ताधिक सन्निपात कुपित होता है उस मनुष्यके ज्वर, मद (बेहोशी), तृषा, मुख-शोष, नेत्रोंका मिचना, अफारा, अरुचि, तन्द्रा, खांसी, श्वास, भ्रम और क्लम (ग्लानि) ये सब लक्षण होते हैं । इसको मुनियोने बन्धुसन्निपात कहा है ॥ ३५३ ॥

पित्तकफाधिकसन्निपातके लक्षण ।

पित्तश्लेष्माधिको यस्य सन्निपातः
प्रकुप्यति । अन्तर्दाहो बाहिः शीतं
तस्य तृष्णा प्रवर्द्धते ॥ ३५४ ॥ तुद्यते
दक्षिणं पार्श्वं मुखशोषगलग्रहाः ।
ष्ठीवति रक्तपित्तं च कृच्छ्रात्कण्ठश्च
दूयते ॥ ३५५ ॥ विद्भेदश्वासहिक्काश्च
वर्द्धन्ते सप्रमीलिकाः । विधुः फल्गुश्च
तौ नाम्ना सन्निपातावुदाहृतौ ॥ ३५६ ॥

✓ जिस मनुष्यके पित्तकफाधिक सन्निपात कुपित होता है उसके शरीरके भीतर दाह हो और बाहरसे शीत लगे, तृषा बढ़ जावे, दहनी पसलीमें पीडा हो, मुखशोष, गला रुक जाय, रुधिर मिला पित्त थूके, कठिनतासे कंठसे बोला जाय, दस्त होने लगे, श्वास हो, हिचकी आवे और नेत्र मिचेसे जावे इनको विद्वानोंने विधु और फल्गु नामक सन्निपात कहा है

अर्थात् पूर्वोक्त बन्धुनामक सन्निपातका नाम विधु और पित्तकफाधिक सन्निपातका नाम फल्गु कहा है ॥ ३५४ ॥ ३५५ ॥ ३५६ ॥

कफवाताधिक शीघ्रकारी
सन्निपातके लक्षण ।

श्लेष्मानिलाधिको यस्य सन्निपातः
प्रकुप्यति । तस्य शीतज्वरो मूर्च्छा
क्षुत्तृष्णा पार्श्वसंग्रहः ॥ ३५७ ॥ शूलम-
स्विद्यमानस्य हिक्का श्वासश्च जायते ।
असाध्यः सन्निपातोऽयं शीघ्रकारी-
ति कथ्यते ॥ नहि जीवत्यहोरात्रम-
नेनाविष्टविग्रहः ॥ ३५८ ॥

✓ जिस मनुष्यके कफवाताधिक सन्निपात कुपित होता है उसके शीतज्वर, मूर्च्छा, तृषा क्षुधा और पसलियोंमें पीडा, शूल, पसीनेका न आना, हिचकी और श्वासका अधिक बढ़ना, ये सब लक्षण असाध्य है, इसको शीघ्रकारी सन्निपात कहते हैं इस सन्निपातवाला रोगी एक दिनरात भी नहीं जीता ॥ ३५७ ॥ ३५८ ॥

वातोल्वण विस्फोरकसन्नि-
पातके लक्षण ।

कासः श्वासस्तमो मूर्च्छा प्रलापो
मोहवेपथू । पार्श्वयोर्वेदना जृम्भा
कषायत्वं मुखस्य च । वातोत्तरस्य
रूपाणि सन्निपातस्य लक्षयेत ॥ ३५९ ॥
एष विस्फोरको नाम्ना सन्निपातः
सुदारुणः ॥

✓ खांसी, श्वास, अंधकारदर्शन, मूर्च्छा, प्रलाप, मोह, कम्प, पसलियोंमें पीडा, जम्भाईका अधिक आना आर मुखमें कसैलापन, ये सब लक्षण जिसमें हों उसको वातोल्वण दारुण विस्फोरक सन्निपात जानना ॥ ३५९ ॥

पित्तोल्वण आशुकारी सन्निपातके लक्षण ।

अतिसारो भ्रमो मूर्च्छा मुखपाकस्त-
थैव च । गात्रे च विन्द्वो रक्ता दाह-

स्तीव्र प्रजायते ॥ ३६० ॥ पित्तोत्तरस्य रूपाणि सन्निपातरय लक्षयेत् ।
भिषग्भिः सन्निपातोऽयमाशुकारी प्रकीर्तितः ॥ ३६१ ॥

अतिसार (दस्तहों), भ्रम, मूर्च्छा, मुखका पकना, शरीरमे लालविंदुओका पड़ना और तीव्र दाहका होना ये लक्षण जिसमें हो उसको पित्तोत्तवण आशुकारी सन्निपात जानना ॥ ३६१ ॥

कफोत्तवण कंपनसन्निपातके लक्षण ।

जडता गद्गदा वाणी रात्रौ निद्रा भवत्यपि । प्रस्तब्धे नयने चैव मुखमाधुर्यमेव च ॥ ३६२ ॥ कफोत्तरस्य रूपाणि सन्निपातस्य लक्षयेत् । मुनिभिस्सन्निपातोऽयमुक्तः कम्पनसंज्ञकः ॥ ३६३ ॥

शरीरकी जडता, गद्गद बोलना, रात्रिमे नीद आना, नेत्रोकी टकटकीसी लगी रहना और मुखमे मधुरता, ये सब लक्षण जिसमें हो उसको कफोत्तवण कंपन सन्निपात जानना ॥ ३६२ ॥ ३६३ ॥

हीनवात मध्यपित्त और अधिककफ वैदारिक सन्निपातके लक्षण ।

हीनमध्याधिकैर्यस्य वातापित्तकफैः क्रमात् । सन्निपातः प्रभवति पीडयन्दोषदर्शनात् ॥ ३६४ ॥ अल्पशूलं कटीतोदो मध्ये दाहो रुजा भ्रमः । भृशं क्लमः शिरोवक्रमन्याहृदयवाशुजः ॥ ३६५ ॥ प्रमीलिकाः श्वासहिक्काकासजाड्यविसंज्ञताः । प्रथमोत्पन्नमेतत्तु साधयेत्तु कदाचन ॥ ३६६ ॥ एतस्मिन्सन्निपाते तु कर्णमूले सुदारुणा । पिटिका जायते जन्तुर्यया कृच्छ्रेण जीवाति ॥ ३६७ ॥ स वैदारिकसंज्ञोऽयं सन्निपातः सुदारुणः । विरात्नात्परमेतस्य व्यर्थमौषधकल्पनम् ॥ ३६८ ॥

जिसके हीनवात, मध्यपित्त और अधिक कफके कोपसं सन्निपात होता है, उसके उन्हीं दोषोंके क्रमसे पीडा करतेहुए लक्षण होते हैं अर्थात् उसमे वातजन्य उपद्रव अल्प, पित्तजन्य उपद्रव मध्यम और कफजन्य उपद्रव अधिक तथा अधिक पीडा करते है, जैसे कि अल्पशूल और कमरमे पीडा ये हीनवातके लक्षण जानने । मध्यदाह, पीडा और भ्रम ये मध्यपित्तके लक्षण जानने तथा अत्यंत ग्लानि यह अधिक कफका लक्षण है इत्यादि । एवं शिर, मुख, मन्या, हृदय और जिह्वामे पीडा हो, नेत्र भिचेसे जावे, श्वास, हिचकी, खाँसी, जडता हो, बेहोशी होवे। इसके उत्पन्न होतेही यदि चिकित्सा की जावे तो कदाचित् आराम होजाय पश्चात् नहीं । इस सन्निपातमे कानकी जड़में दारुण सूजन उत्पन्न होती है, जिसके प्रभावसे मनुष्य बड़े दुःखसे जीता है । इस दारुणसन्निपातको वैदारिक कहते हैं, तीन रात्रिके पश्चात् इसकी औषधि करनी बृथा है ॥ ३६४ ॥ ३६५ ॥ ३६६ ॥ ३६७ ॥ ३६८ ॥

मध्यवात, हीनपित्त, अधिककफ-ककोटक सन्निपातके लक्षण ।

मध्यहीनाधिकैर्यस्य सन्निपातो यदा भवेत् । तस्य रोगास्त एवोक्ता यथा-दोषबलाश्रयाः ॥ ३६९ ॥ अन्तर्दाहो विशेषोऽत्र प्रवक्तुं न च शक्यते । रक्तमालक्तकेनैव लक्ष्यते मुखमण्डलम् ॥ ३७० ॥ यत्नेनाकर्षितः श्लेष्मा हृदयान्न प्रसिच्यते । इषुणेवाहतं पार्श्वं तुद्यते खन्यते हृदि ॥ ३७१ ॥ प्रमीलिकाश्वासहिक्का वर्धन्ते तु दिने दिने । जिह्वा दग्धा खररुपर्शा गलः शूकैरिवावृतः ॥ ३७२ ॥ विसर्गं नाभिजानाति कूजते च कपोतवत् । अतीव श्लेष्मणा पूर्णः शुष्कवक्त्रोष्ठतालुकः ॥ ३७३ ॥ तन्द्रानिद्रातियोगात्तौ हतवाहिर्हतद्युतिः । न चाति भजते ग्लानिं विपरीतानि यच्छति ॥ ३७४ ॥ आयम्यते च बहुशः सरक्तं ष्टीवते-

५ल्पशः । एष कर्कोटको नाम्ना सन्निपातः सुदारुणः ॥ ३७५ ॥

✓ जिसके मध्यवात, हीनपित्त और अधिक कफसे सन्निपात होता है उसके उन्ही दोषोके अनुसार क्रमसे हीन, मध्य और अधिक रोग होते हैं, शरीरके भीतर दाह होना, बोलनेमें असमर्थता, मुखमण्डलका आलके रंगके समान लाल होना, वलपूर्वक आकर्षित किया हुआ भी कफ हृदयसे बाहर नहीं निकलता, पसलियोमे तीर चुभनेकीसी पीडा, हृदयमें खोदनेके समान पीडा, नेत्र मिचेसे जायँ, श्वास और हिचकी, दिन प्रतिदिन बढ़ते जायँ, जिभ जलीहुईसी और खरखरी हो, कंठमे कांटे पड जायँ, बेहोशीमे मल मूत्रको त्याग देवे, अधिक कफसे परिपूर्ण हो जानेसे कण्ठ कबूतरके समान कूजे, मुख, ओष्ठ और तालु सूख जायँ, तन्द्रा और निद्रा होवे, जठराग्नि नष्ट होजाय, कांति (शरीरका शोभा) जाती रहे, अधिक ग्लानि न हो, विपरीत चेष्टा करे और थोड़ा २ रुधिर मिला थूके, ये दारुणसन्निपात 'कर्कोटक' नामसे प्रसिद्ध है ॥ ३६९ ॥ ॥३७०॥३७१॥३७२॥३७३॥३७४॥३७५ ॥

अधिकवात, मध्यपित्त और हीनकफसंमोहकसन्निपातके लक्षण ।

प्रवृद्धमध्यहीनैश्च सन्निपातो यदा भवेत् । तस्य रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्रयाः ॥ ३७६ ॥ प्रलापायाससंमोहकम्पमूर्च्छारतिभ्रमाः । एकपक्षाभिघातस्तु तत्राप्येताद्विशेषतः । एष संमोहको नाम्ना सन्निपातः सुदारुणः ॥ ३७७ ॥

✓ अधिकवात, मध्यपित्त और हीनकफके कोपसे जो सन्निपात होता है, उसमें उन्ही दोषोके अनुसार क्रमसे अधिक, मध्य और हानरोग होते हैं । प्रलाप, श्रम, बेहोशी, कम्प, मूर्च्छा, चित्तका कहीं न लगना, भ्रम और एक ओरका अंग रह जाना इन विशेष लक्षणोसे युक्त दारुण सन्निपातको 'संमोहक' कहते हैं ॥ ३७६ ॥ ३७७ ॥

हीनवात, वृद्धपित्त और मध्यकफोल्बण सन्निपातके लक्षण ।

हीनातिवृद्धमध्यैस्तु सन्निपातो यदा भवेत् । तस्य रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्रयाः ॥ ३७८ ॥ हृदयं दह्यते चास्य यकृत्प्लीहान्तफुफ्फुसाः । पच्यन्तेऽत्यर्थमूर्ध्वाधःपूयशोणितनिर्गमः ॥ ३७९ ॥

✓ हीनवात, वृद्धपित्त और मध्यकफके कोपसे जो सन्निपात होता है, उसमें उन्ही दोषोके क्रमसे हीन, अधिक और मध्यम रोग होते हैं । हृदयमे जलन, यकृत, प्लीहा, अँते और फेफड़ा यह पक जाते हैं, ऊर्ध्व और अधोमार्गसे राध और रुधिर निकलता है ॥ ३७८ ॥ ३७९ ॥

अधिकवात, हीनपित्त और मध्यकफजन्य सन्निपातके लक्षण ।

प्रवृद्धहीनमध्यैस्तु वातपित्तकफैश्च यः तेन रोगास्त एवोक्ता यथारोगबलाश्रयाः । प्रलापायाससंमोहकम्पमूर्च्छारतिभ्रमाः ॥ ३८० ॥ मन्यास्तम्भेन मृत्युश्च तत्राप्येताद्विशेषणम् ।

✓ अधिकवात, हीनपित्त और मध्यकफके कोपसे जो सन्निपात होता है, उसमें उन्ही दोषानुसार क्रमसे रोग होते हैं । तथा प्रलाप, श्रम, मोह, कम्प, मूर्च्छा, बेचैनी, भ्रम और मन्या नाड़ीके स्तम्भसे मृत्युका होना ये विशेष लक्षण होते हैं ॥ ३८० ॥

मध्यवात, अधिकपित्त और हीनकफोल्बणसन्निपातके लक्षण ।

मध्यप्रवृद्धहीनैश्च सन्निपातो यदा भवेत् । तस्य रोगास्त एवोक्ता यथारोगबलाश्रयाः ॥ ३८१ ॥ मोहप्रलापमूर्च्छाः स्यु स्तम्भकम्पशिरोग्रहाः । कासश्वासौ भ्रमस्तन्द्रा संज्ञानाशो हृदि ग्रहः ॥ ३८२ ॥ खेभ्यो रक्तं विसृजति तत्राप्येताद्विशेषणम् । अर्वाकू

त्रिरात्र मृत्युश्च तन्द्री वा स्तब्धलो-
चनः । त्रयाणां नामानि याम्य-
क्रकचपाकलाः ॥ ३८३ ॥

मध्यवात, अधिकपित्त और हीनकफके कोपसे जो सन्निपात होता है, उसमें उन्हीं दोषोंके बलानुसार क्रमसे रोग होते हैं । मोह, प्रलाप, मूर्च्छा, अंधकार-दर्शन, कम्प, शिरोरोग, खाँसी, श्वास, भ्रम, तन्द्रा, अचेत होजाना, हृदयमें पीडा, मुखनासिका आदिसे रुधिरका निकलना, तन्द्राका होना और नेत्रोंका पथराना ये विशेषलक्षण हैं । यह सन्निपात तीनदिनमें ही मनुष्यको मार देता है । उपरोक्त तीनों सन्निपातोंके क्रमसे याम्य, क्रकच और पालक नाम जानने ॥ ३८१ ॥ ३८२ ॥ ३८३ ॥

त्रिदोषोत्पन्न कूटपाकल सन्निपात-
ज्वरके लक्षण ।

सर्वदोषैः प्रकुपितं सन्निपातं निबोध
मे । त्रयाणामपि दोषाणां सर्वरूपाणि
लक्षयेत् ॥ ३८४ ॥ यानि ज्वरचिकि-
त्सायां रूपाण्युक्तानि कृत्स्नशः । तैः
सर्वैरेव सम्पूर्णैर्विज्ञेयः कूटपाकलः ॥
॥ ३८५ ॥ व्याधिभ्यो दारुणेभ्यश्च
वज्रशस्त्राग्निसन्निभः । केवलोच्छ्वास-
सपरमः स्तब्धाङ्गः स्तब्धलोचनः ॥
॥ ३८६ ॥ त्रिरात्रात्परमेतस्य जन्तो-
र्हरति जीवितम् । तदावश्यन्तु तं दृष्ट्वा
मूढो व्याहरते यतः ॥ ३८७ ॥ धर्षितो
राक्षसैर्नूनमवेलायां चरन्ति ये ।
अम्बया ब्रुवते केचिद्यक्षिण्या ब्रह्मरा-
क्षसैः ॥ ३८८ ॥ पिशाचैर्गृह्यकैश्चैव
तथान्यैर्मस्तके हतम् । कुलदेवार्चना-
द्धीनं धर्षितं कुलदेवतैः ॥ ३८९ ॥ नक्ष-
त्रपीडामपरे गरकर्मोति चापरे ।
वदन्ति सन्निपातन्तु भिषजाः कूट-
पाकलम् ॥ ३९० ॥

तीनों दोषोंके उत्पन्न होनेसे जो सन्निपात कुपित
होता है उसमें तीनों दोषोंके सब लक्षण होते हैं ।

सब प्रकारके ज्वरोंमें जो जो लक्षण होते हैं
ये सब लक्षण इस कूटपाकल सन्निपातमें होते
हैं । यह दारुण व्याधि-वज्र, शस्त्र और अग्निके
समान भयंकर है । इस सन्निपातरोगीके केवल
श्वासमात्र ही आता है, सब शरीर जकड़ जाता
है और नेत्र पत्थरके समान स्थिर होजाते हैं । तीन
दिनके पश्चात् यह मनुष्यको मार देता है । इस सन्नि-
पातरोगीको देखकर मूर्खलोग नानाप्रकारकी कपोल-
कल्पना करते हैं । कोई कहता है कि,—यह कुसमय
(आधीरातके समय) चौराहा, गमशानभूमि आदि-
स्थानोंमें गया इससे वहाँ राक्षसोंने दवा लिया हो,
कोई कहता है कि—इसको देवीने ग्रस लिया है, कोई
कहता है कि यक्षिणीने ग्रसा है, कोई ब्रह्मराक्षसकी
बाधा बतलाता है, कोई पिशाचग्रसित और कोई गुह्य-
कग्रसित कहता है । कोई कहता है कि, इसके शिरमें
चोट लगी है, कोई कहता है कि, इसने कुलदेवताका
पूजन नहीं किया था अतः अब उन्होंने इसे दवा लिया
है, कोई नक्षत्रकी पीडा कहता है, कोई कहता है कि
इसने विपभक्षण करलिया है, इसप्रकार मूढलोग
अनेक प्रकारकी कल्पना करतेहैं परन्तु वैद्यलोग इसको
कूटपाकल सन्निपात कहते हैं ॥ ३८४ ॥ ३८५ ॥
३८६ ॥ ३८७ ॥ ३८८ ॥ ३८९ ॥ ३९० ॥

कूटस्थैर्जायतेदोषैर्बलिभिः कूटपाकलम् ।
त्रयोदशविधं प्रोक्तं सन्निपातस्य
लक्षणम् ॥ ३९१ ॥

यह बलवान् कूटस्थ दोषोंसे उत्पन्न होता है इस-
कारण इसको कूटपाकल सन्निपात कहते हैं । इस-
प्रकार तेरहप्रकारके सन्निपातोंके लक्षण कहेहैं ३९१ ॥

अथ सन्निपातचिकित्सा ।

वर्धते वापि हीनस्य द्वियत ह्युच्छ्रि-
तस्य च । कफस्थानानुपूर्व्या वा
सन्निपातज्वरक्रिया ॥ ३९२ ॥

अब सन्निपातकी चिकित्सा कहते हैं—हीन दोषको
बढाकर और बढे हुए दोषको घटाकर कफके स्थानसे
प्रारम्भ करके सन्निपातकी चिकित्सा करना उत्तम
है ॥ ३९२ ॥

हीनस्य वर्धनाद्धानिर्वृद्धयोरिति
निश्चयः । हापनादतिवृद्धस्य हीनयो-
र्वृद्धिसम्भवः ॥ ३९३ ॥

सन्निपातमे हीन दोषको बढ़ाना और बढ़े हुए
दोषको घटाना अथवा अत्यंत वृद्धको हीन करना और
हीनको बढ़ाना इस प्रकार क्रिया करनी चाहिये ३९३

ततः समत्वं दोषाणामामस्थानं
कफस्य तु । तत्रस्थानां क्रियां तद्र-
दिति ज्वरविनिर्णयः ॥ ३९४ ॥

पश्चात् सब दोषोंमें प्रथम कफ और आमके स्थानसे
चिकित्सा प्रारम्भ करनी चाहिये अर्थात् प्रथम कफ
और आमको दूर करना चाहिये, ऐसा सब ज्वरोमें
निश्चय है ॥ ३९४ ॥

यथा दोषोच्छ्रयश्चैव ज्वराञ्छेषालुपा-
चरेत् । निर्हेरत्पित्तमेवादौ ज्वरेषु
समवायिषु । दुर्निवारतरं तद्धि ज्वरा-
तेषु विशेषतः ॥ ३९५ ॥

जिस प्रकार दोष बढ़े हुए हो उसी प्रकार सम्पूर्ण
ज्वरोकी चिकित्सा करे । समवायि (मिलेहुए) ज्वरमें
प्रथम पित्तको शमन करना चाहिये. कारण, पित्त
अत्यंत दुर्निवार्य है और ज्वररोगपीडित शरीरमें
विशेष कर दुर्निवार्य हो जाता है ॥ ३९५ ॥

सन्निपाते क्षुधार्तं यो भोजयेत्पिशि-
तौदनम् । स कथं भिषगाख्यातिं
लभेन्मूढो नराधमः ॥ ३९६ ॥

जो नराधम सन्निपात ज्वरमें रोगीको क्षुधाके
समय मांस और भात खानेको देता है, वह मूर्ख
किस प्रकार वैद्य कहा जा सकता है ? ॥ ३९६ ॥

सन्निपाते तु दाहार्थं यः सिञ्चेच्छी-
तवारिणा । आतुरः स कथं जीवे-
द्धि ष्वा स कथं भवेत् ॥ ३९७ ॥

✓सन्निपातरोगमें दाहसे पीडित मनुष्यको जो वैद्य
शीतल जलसे सींचता है तो वह रोगी कैसे जी सक-
ता है ? और वह वैद्य वैद्य कैसे होसकता है ३९७ ॥

सन्निपातेन मनुजं विलपन्तन्तु यो
घृतम् । पाययेद्भोजयेद्वापि तौ च
स्यातामुभौ वधम् ॥ ३९८ ॥

✓ जो मनुष्य सन्निपातरोगमें प्रलाप करते हुए मनु-
ष्यको घृतपान करावे, अथवा भोजनमें घृत देवे तो
इन दोनों विधियोंसे रोगी मरजाता है ॥ ३९८ ॥

सन्निपातेन तप्यन्तं पार्श्वरुक्तालुशो-
षिणम् । यः पाययेज्जलं शीतं स मृत्यु-
र्नरविग्रहः ॥ ३९९ ॥

✓सन्निपातरोगमें तृपासे पीडित तथा पसलियोंकी
पीड़ा और तालुशोपसे पीडित रोगीको यदि शीतल
जल पिलावे तो उस वैद्यको मृत्युरूप जानना ॥ ३९९ ॥

समुद्रतरणं ह्येतद्वदन्ति भिषगी-
श्वराः । मृत्युना सह योद्धव्यं सन्नि-
पातचिकित्सुना ॥ ४०० ॥

जो सन्निपातकी चिकित्सा करता है वह वैद्य
साक्षात् मृत्युके साथ युद्ध करता है, उसको प्राचीन
वैद्य समुद्रसे तारनेवाला कहते हैं ॥ ४०० ॥

सन्निपातार्णवे मग्नं योऽभ्युद्धरति
मानवम् । कस्तेन न कृतो धर्मः
काश्च पूजां न सोऽर्हति ॥ ४०१ ॥

सन्निपातरूपी समुद्रमें डूबेहुए रोगीको जो उद्धार
करता है उसने कौनसा धर्म नहीं किया ? और वह
कौनसी पूजाको प्राप्त नहीं होता है ? ॥ ४०१ ॥

श्लेष्मनिग्रहमेवादौ कुर्याद्ब्रह्मार्थो त्रिदो-
षजे । निरस्ते श्लेष्मणिह्यस्य स्रोतस्सूदा-
टितेषु च । लाघवं जायते ह्यस्य तृष्णा
चैवोपशाम्यति ॥ ४०२ ॥

✓सन्निपातज्वरमें प्रथम कफको दूर करे, क्योंकि
जब कफ निकल जायगा तब सब शरीरके छिद्र शुद्ध
होजायेंगे और शरीर भी हलका हो जायगा फिर तृपा
भी शांत हो जायगी ॥ ४०२ ॥

लङ्घनं वालुकास्वेदो नस्यं निष्ठीवनं
तथा । अवलेहोऽजनश्चैव प्राक्प्रयोज्यं
त्रिदोषजे ॥ ४०३ ॥

लंघन, वालुकास्वेद, (वालुसे सेककर पसीना
निकालना), नास देना, निष्ठीवन (कुल्ले करना), अव-
लेह और अंजन ये सब सन्निपातमें प्रथम प्रयोग
कराने चाहिये ॥ ४०३ ॥

त्रिरात्रं च त्रिरात्रं वा दशरात्रमथापि
वा। लङ्घनं सन्निपातेषु कुर्यादारोग्यद-
र्शनात् ॥ ४०४ ॥

तीन या पाँच रात्रि अथवा सात रात्रि किंवा दश
रात्रि या आरोग्य होनेपर्यंत सन्निपातमे लंघन कराने
चाहिये ॥ ४०४ ॥

दोषाणामेव सा शक्तिर्लङ्घने या सहि-
ष्णुता । नहि दोषक्षये कश्चित्सहते
लङ्घनादिकम् ॥ ४०५ ॥

जितने दिनोंतक रोगी लंघन सहसके उतने दिनों-
पर्यंत दोषोका बल जानना चाहिये क्योंकि दोषोके
नाश होनेपर ऐसा कौन मनुष्य है जो लंघनको सह
लेवे ॥ ४०५ ॥

कफापित्ते द्रवे धातू सहते लङ्घनं महत् ।
आमक्षयादूर्ध्वमपि वायुर्न सहते
क्षणम् ॥ ४०६ ॥

कफ और पित्त ये दोनों पतले पदार्थ है, इसकारण
ये बहुत लंघनको सह सकते है। आमके क्षय होनेपर
केवल वायु शेष रहजाता है, वह एक क्षण भी लंघन
नहीं सह सकता है ॥ ४०६ ॥

उत्तम, हीन और अधिक लंघन
होनेके लक्षण ।

ग्लान्यङ्गौरवे श्रद्धाविकृतिर्हीनलङ्घि-
ते । प्रकांक्षालाघवो ग्लानिः स्वस्थता
सुप्रसन्नता ॥ ४०७ ॥ उपद्रवनिवृत्तिश्च
सम्यङ्लङ्घितलक्षणम् । संमोहः सन्धि-
शैथिल्यं वातरुक्चातिलङ्घिते ॥ ४०८ ॥

शरीरमे ग्लानि, भारीपन, अश्रद्धा ये विकार
हीनलंघनके हैं । भोजनमे इच्छा, शरीरमे
हलकापन, ग्लानिका नाश, स्वस्थता, प्रसन्नता और
पूर्ण उपद्रवोंका निवृत्ति ये अच्छे प्रकारसे लंघन होनेके
लक्षण है । माह, संधियोंमे शिथिलता और वातके
रोग ये लक्षण अत्यंत लंघन करनेमे होते है ॥ ४०७ ॥
॥ ४०८ ॥

शस्तं सुलङ्घितस्यादौ विधाय कव-
लयहम् ॥ ४०९ ॥

सन्निपातमे अच्छे प्रकारसे लंघन क्रिये हुए मनु-
ष्यको प्रथम कवल धारण कराना चाहिये ॥ ४०९ ॥

लाजसक्तुकपथ्यं स्यात्सन्धवेनावचू-
र्णितम् । तच्चेज्जीर्यत्यविघ्नेन रोगी
जीवेत्तदा ध्रुवम् ॥ ४१० ॥

खीलोके सत्तुओको सैधे नमकके साथ मिलाकर
सन्निपातरोगीको देवे, जो वह अच्छे प्रकारसे पचजाय
और कुछ विकार न लावे तो रोगी निश्चय जीता
है ॥ ४१० ॥

रक्तपित्तहरत्वेन दाहज्वरकृते तथा ।
सक्तवः शीतवीर्याः स्युर्लाजपूर्वा
हिता न ते ॥ ४११ ॥

खीलोके सत्तु, रक्तपित्त और दाहज्वरको नष्ट करते
है इसकारण शीतवीर्य्य है, शीतवीर्य्य होनेके कारण
सन्निपातमे हितकारो नहीं है ॥ ४११ ॥

पाचनो दीपनो लाजमण्डस्तेनोष्ण
इष्यते । अतोऽयं दशमूलादिसाधि-
तोऽयं भिषग्मतः ॥ ४१२ ॥

खीलोका मांड-पाचन, दीपन और उष्ण है । इस-
लिये इसको दशमूलादि औषधियोंके साथमे सिद्ध
करके देना चाहिये ॥ ४१२ ॥

पञ्चमुष्टिकयूषेण त्रिकण्टककृतेन च ।
त्रिदोषशमनाद्यर्थं त्रिकण्टेनैव साध-
येत् ॥ ४१३ ॥ यवकोलकुलत्थानां
मुद्गामलकशुण्ठयोरः । एकैकं मुष्टि-
मादाय पचेदष्टगुणे जले ॥ ४१४ ॥
पञ्चमुष्टिक इत्येष वातपित्तकफापहः।
शस्यते गुल्मशूले च श्वासे कासेक्षये
ज्वरे ॥ ४१५ ॥

पंचमुष्टिकयूपकी औषधियोंको गोखरुकके साथमे
डालकर विधिपूर्वक यूप सिद्ध कर त्रिदोषशमन करनेके
लिये देवे । जौ, वेर, कुलथी, मूंग और आमले

प्रत्येकको एक २ मुट्टी लेकर अठगुने जलमे पकावे, जब थूप पककर सिद्ध होजाय तब उतारकर छान लवे फिर उसमे थोडासा सोठका चूर्ण डाल देवे । इसको पंचमुष्टिकयूप कहते हैं । यह पंचमुष्टिकयूप वात, पित्त और कफनाशक है तथा गुल्म, शूल, श्वास, खाँसी, क्षय और ज्वरमे हितकारी है ॥४१३॥४१४॥ ॥ ४१५ ॥

यवकोलकुलत्थैश्च मुद्गामलकसंयुतैः ।
धान्याकविश्वयुक्तैश्च यूपो वातकफा-
पहः ॥ ४१६ ॥ सप्तमुष्टिक इत्येष सन्नि-
पातज्वरापहः । कफवातामदोषघ्नः
कण्ठहृद्रक्त्रशोधनः ॥ ४१७ ॥ आर्द्रक-
स्वरसोपेतं सैन्धवं सकटुत्रयम् । आ-
कण्ठं धारयेदास्ये निष्ठीवेच्च पुनः पु-
नः ॥ ४१८ ॥ तेनास्य हृदये श्लेष्मा म-
न्यापार्श्वशिरोगलात् । लीनोऽप्याकृ-
प्यते शुष्को लाघवं चास्य जायते ४१९
पर्वभेदो ज्वरो मूर्च्छा निद्राश्वासगला-
मयाः । मुखाक्षिगौरवं जाड्यमुत्क्लेश-
श्चापशाम्यति ॥४२०॥ सकृद्विचित्रतुः
कुय्याद्दृष्ट्वा दोषबलाबलम् । एताद्धि
परमं प्राहुर्भेषजं सन्निपातिनाम् ४२१ ॥

✓ जौ, वेर, कुलथी, मूँग, आमले, धानियाँ और सोठ प्रत्येकको ४-४-तोले लेकर पूर्वोक्त विधिसे थूप बनावे । इसको सप्तमुष्टिकयूप कहते ह । यह सप्तमुष्टिकयूप वातकफनाशक तथा सन्निपातज्वर, कफ, वात और आमदोषनाशक है एवं कंठ, हृदय और मुखको शुद्ध करता है । सैधानोन, सोठ, मिरच, पीपल इनके चूर्णको अदरखके रसमे मिलाकर मुखमे धारण करे, जो कफ आवे तो उसको वारंवार थूकता रहे । इस प्रकार करनेसे हृदय, मन्या, पसली, शिर और गलेमे लिसाहुआ भी कफ खिचकर बाहर निकल जाता है और शरीर हलका हो जाता है, संधियोंकी पीडा, ज्वर, मूर्च्छा, निद्रा, श्वास, गलरोग, मुख तथा नेत्रोंकी गुरुता, शरीरकी जड़ता और उबकाई दूर होती है । इसप्रकार दोपोका बलाबल विचार कर दो, तनि या चार-वार करे, यह सन्निपातरोगियोंकी उत्तम औषधि है ॥ ४१६-४२१ ॥

सुरसार्जकनिर्यासः समधुव्योषसैन्ध-
वः । महाश्लेष्मानिलोद्रेकसंज्ञानाश-
विमोक्षणः ॥४२२ ॥

तुलसीका स्वरस, शहद, राल, त्रिकुटा और सैधानोन इन सबको एकत्र मिलाकर चाटे तो बढे हुए कफ-वात नष्ट हों तथा चैतन्य उत्पन्न होता है ॥ ४२२ ॥

मधूकसारसिन्धूत्थवचोषणकणाःसमाः।
श्लक्ष्णं पिष्ट्वाभ्रमसानस्यं कुय्यात्संज्ञा-
प्रबोधनम् ॥ ४२३ ॥

✓ महुएका सार, सैधानोन, वच, काली मिरच और पीपल इन सबको समान भाग लेकर जलमे बारीक पीसकर नास लेनेसे संज्ञाका ज्ञान होता है ॥ ४२३ ॥

स्विन्नमामलकान्पिष्ट्वा द्राक्षया सहसंयु-
जेत् । विश्वभेषजसंयुक्तं मधुना सह
लेहयेत् ॥ ४२४ ॥ तेनास्य शाम्यते
मूर्च्छा कासः श्वासस्तथैव च ॥ ४२५ ॥

सीजेहुए आमले, मुनका और सोठ इन सबको एकत्र पीस शहदके साथ चाटनेसे मूर्च्छा, खाँसी और श्वास ये सब दूर होते है ॥ ४२४ ॥ ४२५ ॥

अष्टाङ्गं मधुना लिह्यादार्द्रकस्वरसेन
वा । संमोहं दारुणं हन्ति तन्द्राकास-
समन्वितम् ॥ ४२६ ॥

अष्टांग अवलेहको शहद अथवा अदरखके रसमे मिलाकर चाटनेसे तन्द्रा और खाँसी संयुक्त वेहोशी दूर होती ह ॥ ४२६ ॥

कट्फलं पुष्करं भाङ्गी व्योषं यासश्च
कारवी । श्लक्ष्णं चूर्णीकृतञ्चैतन्मधुना
सह लेहयेत् ॥ ४२७ ॥ एषावलेहिका
हन्ति सन्निपातं सुदारुणम् । हिकां
श्वासश्च कासश्च कण्ठरोगं नियच्छति
॥ ४२८ ॥ एतद्योज्यं कफोद्रेके चूर्ण-
मार्द्रकजै रसैः । ऊर्ध्वजनुगदघ्नी या
सायं काय्यावलेहिका । अधोरोगहरी
या तु सा पूर्वं भोजनान्मता ॥४२९ ॥

कायफल, पोहकरमूल, भारंगो, त्रिकुटा, जवासा और कलोजी इन सबको एकत्र महीन पीसकर गह-दमे मिलाकर चाटे तो दारुणसन्निपात, हिक्का, श्वास, खाँसी और कंठरोग नष्ट होते हैं। इस चूर्णको कफकी अधिकतामें अदरखके रसमें मिलाकर सेवन करे। जो अवलेह ऊर्ध्वजत्रु और अधोगत रोगोको हरण करनेवाले हैं उनको सन्ध्याके समय भोजनसे प्रथम देना चाहिये ॥ ४२७ ॥ ४२८ ॥ ४२९ ॥

मरिचं पिप्पली शुण्ठी पथ्या लोध्रं
सपुष्करम्। भूनिम्बकटुका कुष्ठं यवा-
नी कटुफलं तथा ॥ ४३० ॥ एतानि
समभागानि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् ।
प्रस्वेदे कण्ठरोधे च सन्धौ मर्दनमि-
ष्यते । एतदुद्धूलनं प्रोक्तं सन्निपातहरं
परम् ॥ ४३१ ॥

त्रिकुटा, हरड़, लोध, पोहकरमूल, चिरायता, कुटकी, कूठ, अजवायन और कायफल इन सबको समान भाग लेकर वारिक चूर्ण करले, इसको अधिक पसी-नेके आनेमें, कंठरोध और संधियोंकी पीड़ा होनेपर शरीरमें मर्दन करे। यह उत्तम उद्धूलन सन्निपात-नाशक है ॥ ४३० ॥ ४३१ ॥

सर्वेषु सन्निपातेषु न क्षौद्रमवचारयेत् ।
शीतोपचारि क्षौद्रं स्याच्छीतं चात्र
विरुध्यते ॥ ४३२ ॥

✓सम्पूर्ण सन्निपातोमें मधु नहीं देना चाहिये। कारण यह है कि, मधुभक्षण करनेके पश्चात् गतिल उप-चार करनेकी आवश्यकता होती है, किन्तु सन्निपातमें शीतल उपचार वर्जित है ॥ ४३२ ॥

क्रियाभिस्तुर्यरूपाभिः क्रियासांक-
र्यमिष्यते । भिन्नरूपतया तास्तु न
कुर्वन्ति हि दूषणम् ॥ ४३४ ॥

जो एक समयमें एकसी दो चिकित्सा की जाती है उनको संकरक्रिया कहते हैं, उक्त क्रिया पृथक् पृथक् करनेसे दोपकारक नहीं होती है ॥ ३४४ ॥

यदा स्वल्पानिलकफौ तालुकुहोमगतौ
श्रितौ । कुट्यातामधिकं शोषं जिह्वा-
याः स्वरतां तथा ॥ ४३४ ॥ तदा तां

स्फुटितां जिह्वामुच्छुष्कां मधुपिष्टया ।
द्राक्षया साज्यया चास्यं लेपयेत्सं-
निपातिनः ॥ ४३५ ॥ घर्षेज्जिह्वां जडां
सिन्धुच्यूपणेः साम्लवेतसेः ॥ ४३६ ॥

✓जब अल्पवात और कफके आश्रित तालु और क्लोम होते हैं तब अधिक शोष उत्पन्न करते हैं तथा जीभ को खरखरी और फटीसी कर देते हैं। इसपर मुनक्का गहद अथवा घीमें पीसकर जिह्वापर लेप करना चाहिये। जो जिह्वा जड़ होजाय तो सैधानोन और त्रिकुटेके चूर्णको अमलवंतके रसमें मिलाकर जीभपर घिसे ॥ ४३४ ॥ ४३५ ॥ ४३६ ॥

स्वेदोद्गमे भ्रष्टकुलत्थचूर्णनिपातनं
शरतामिति ब्रुवन्ति । मृत्युश्च तस्मि-
न्बहुपिच्छिलत्वाच्छीतस्य जन्तोः
परितः सरत्वात् ॥ ४३७ ॥

✓ सन्निपातज्वरमें बहुत पसीना आवे तो मुनीहुई कुलथीको पीसकर शरीरमें मर्दन करना चाहिये। इस पसीनेमें बहुत पिच्छिलता होनेके कारण और उससे शीघ्र ही शीतके फैलजानेसे तत्काल रोगीकी मृत्यु होती है ॥ ४३७ ॥

चूर्णं यथा कटुफलकृष्णजीरकं लोध्रं
गवां काननविट्पुरातनम् । तित्ता
सपथ्या लवणं तथांजनमुद्धूलनंस्वेद-
विकारजित्परम् ॥ ४३८ ॥

✓कायफल, कालाजीरा, लोध, पुराने आरने उपले, कुटकी, हरड़, नमक और अञ्जन इन सबको वारिक पीसकर शरीरमें मलनेसे पसीनेका आना बंद होजाता है ॥ ४३८ ॥

भूनिम्बः कारवी तित्ता वचा कटुफलजं
रजः । उद्धूलनं त्रिदोषोत्थे ह्यभिष्य-
न्दिनि च ज्वरे ॥ ४३९ ॥

चिरायता, कालाजीरा, कुटकी, वच और कायफल इन सबको वारिक पीसकर उद्धूलन करे। यह त्रिदोष-ज्वर और अभिष्यान्दिज्वरमें हितकारी है ॥ ४३९ ॥

विल्वोऽग्निमन्थः स्योनाकः काश्मरी
पाटला स्थिरा । त्रिकण्टकः पृष्ठपर्णी

बृहती कण्टकारिका । दशमूलमिदं
श्वाससन्निपातज्वरापहम् ॥ ४४० ॥ अ-
विपाकानिलश्लेष्मतन्द्रापाश्वात्तिकास-
नुत । पिप्पलीचूर्णसंयुक्तं हृत्कण्ठग्र-
हनाशनम् ॥ ४४१ ॥ महान्ति यां
मूलानि काष्ठगर्भानि यानि च । तेषां
तु वत्कलं ग्राह्यं ह्रस्वमूलानि
कृत्स्नशः ॥ ४४२ ॥

बेलगिरी, अरणी, सोनापाठा, कुम्भेर, पाठल,
शालपर्णी, पृश्निपर्णी, गोखरू, बडी कटेरी और
कटेरी इन सब औषधियोंके समुदायको दशमूल कहते
हैं । यह दशमूल, उवास, सन्निपातज्वर, अजीर्ण, वात,
कफ, तन्द्रा, पार्श्ववेदना आर खांसीको नष्ट करता है ।
इसमें पीपलका चूर्ण मिला लिया जाय तो हृदय और
कंठवरोधको दूर करता है । इनमें जिन औषधि-
योंकी बडी जडे हैं और जो छालसे लिपटी हुई हैं
उनके छाल लेने चाहिये और जिनकी छोटी जड़ें हैं
उनका सर्वांग लेना चाहिये ॥ ४४०—४४२ ॥

दशमूलस्य निर्यूहः कट्फलादिरजो-
युतः । तुल्यार्द्रकरसोपेतो मृत्युकल्पं
ज्वरं जयेत ॥ ४४३ ॥

दशमूलके निर्यूहमें कायफल आदिका चूर्ण और
समानभाग अदरखकारस मिलाकर पान करे तो
मृत्युकल्पके समान ज्वरको भी नष्ट करता है ॥ ४४३ ॥

पञ्चमूलीकिरातादिगणो योज्यस्त्रि-
दोषजे । पित्तोत्कटे च मधुना कणया
वा कफोत्कटे ॥ ४४४ ॥

त्रिदोषज्वरमें पञ्चमूलके क्वाथमें किरातादि गणकी
औषधियोंको मिलाकर प्रयोग करे एवं पित्ताधिकसन्नि-
पातमें पञ्चमूलके क्वाथको गृहदके साथ और कफा-
धिकमें पञ्चमूलके क्वाथको पीपलके साथदेवे ॥ ४४४ ॥

चिरज्वरे वातकफोल्बणे वा त्रिदोषजे
वा दशमूलमिश्रः । किराततित्तादि-
गणः प्रयोज्यः शुद्धार्थिने वा त्रिवृता-
विमिश्रः ॥ ४४५ ॥

दशमूल, चिरायता, नागरमोथा, गिलोय और
सोठ इनका क्वाथ पुराने वातकफोल्बणज्वरमें अथवा

त्रिदोष ज्वरमें देवे, यदि दस्त लानेकी आवश्यकता
हो तो निसोतका चूर्ण डाल कर देवे ॥ ४४५ ॥

दशमूली शठी शृङ्गी पौष्करं सडुरा-
लभम् । भार्ङ्गी कुटजबीजश्च पटोलं
कटुरोहिणी ॥ ४४६ ॥ अष्टादशाङ्ग
इत्येषः सन्निपातज्वरापहः । कासह-
द्ग्रहपार्श्वार्तिश्वासहिककावभीहरः ४४७ ॥

✓ दशमूल, कचूर, काकडाशिंगी, पोहकरमूल,
धमासा, भारङ्गी, इन्द्रजौ, पटोलपत्र और कुटकी इन
सब औषधियोंको अष्टादशांग कहते हैं । यह अष्टादशांग
क्वाथ सन्निपातज्वर, खांसी, हृदयरोग, पसलियोंकी
पीडा, उवास, हिचकी और वमनको दूर करता है ॥
॥ ४४६ ॥ ४४७ ॥

दशमूलीकषायन्तु पुष्कराह्वकणायुत-
म् । सन्निपातज्वरे देयं श्वासकासतृषा-
न्विते ॥ ४४८ ॥

दशमूलके क्वाथमें पोहकरमूल और पीपलका
चूर्ण डालकर उवास, खांसी और तृषा युक्त सन्निपा-
तज्वरमें देना चाहिये ॥ ४४८ ॥

बृहत्यौ पुष्करं भार्ङ्गी शठी शृङ्गी डुरा-
लभा । वत्सकस्य च बीजानि पटालं
कटुरोहिणी ॥ ४४९ ॥ बृहत्यादिगणः
प्रोक्तः सन्निपातज्वरापहः । श्वासादि-
षु च सर्वेषु हितः सोपद्रवेषु च ॥ ४५० ॥

बडी कटेरी, कटेरी, पोहकरमूल, भारङ्गी, कचूर,
काकडा शिंगी, धमासा, इन्द्रजौ, पटोलपात और कुटकी
इन औषधियोंके समूहको बृहत्यादिगण कहते हैं । यह
बृहत्यादिगण सन्निपातज्वरनाशक है तथा श्वासादि सब
उपद्रव सहित त्रिदोषज्वरमें हितकारी है ४५० ॥ ४४९ ॥

शठीपुष्करमूलं च व्याघ्रीं शृङ्गी डुराल-
भा । गुडूची नागरं पाठा किरातं कटु-
रोहिणी ॥ ४५१ ॥ एष शक्यादिको वर्गः
सन्निपातज्वरापहः । कासहद्ग्रहपार्श्व-
र्तिश्वासे तन्द्राश्च शस्यते ॥ ४५२ ॥

कचूर, पोहकरमूल, कटेरी, काकडाशिंगी, धमासा,
गिलोय, सोठ, पाठ, चिरायता और कुटकी इन सब

औपधियोक्ते सूहको शब्द्यादिवर्ग कहते हैं । यह शब्द्यादिवर्ग सन्निपातज्वरनाजक है, तथा खांसी, हृदयरोग, पसलियोकी पीडा, ज्वास और तन्द्रामे हितकारी है ॥ ४५१ ॥ ४५२ ॥

शटी पुष्करमूलन्तु गुडूची विश्वभेष-
जम् । त्रिकण्टकं त्रायमाणा पिप्पली
सदुरालभा ॥ ४५३ ॥ व्याघ्री पर्पटकं
रास्नाऽभया कटुकरोहिणी । देवदारु
वचा भाङ्गी समभागानि कारयेत् ॥

॥ ४५४ ॥ एष शब्द्यादिको वर्गः सन्नि-
पातज्वरापहः । कासं श्वासं दिवा-
निद्रां रात्रौ जागरणं तथा । मुखशोषं
तृषां दाहं त्रिदोषञ्च नियच्छति ॥ ४५५ ॥

कचूर, पोहकरमूल, गिलोय, सोठ, गोखरु, वन-
पसा, पीपल, धमासा, कटेरी, पित्तपापडा, रायसन,
हरड, कुटकी, देवदारु, वच और भारङ्गी इन सब
औपधियोक्ते समुदायको वृहच्छब्द्यादिवर्ग कहते हैं ।
यह शब्द्यादिवर्ग सन्निपातज्वर, खांसी, ज्वास, दिन
मे सोना, रात्रिमे जागना, मुखशोष, तृषा, दाह और
त्रिदोषको नष्ट करता है ॥ ४५३ ॥ ४५४ ॥ ४५५ ॥

पित्ताधिक्ये तु शब्द्यादिर्वृहत्यादिः
कफाधिके । वातोत्तरे सन्निपाते कटु-
फलादिः प्रशस्यते ॥ ४५६ ॥

पित्ताधिकसन्निपातमे शब्द्यादिकाथ, कफाधिक
सन्निपातमे वृहत्यादि और वाताधिकसन्निपातमे
कटुफलादिक्वाथ हितकारी है ॥ ४५६ ॥

कटुफलाब्दवचापाठापुष्कराजाजिप-
र्पटेः । देवदार्वभयाशृङ्गीकणाभूनि-
म्बनागरैः ॥ ४५७ ॥ भाङ्गीकलिङ्गक-
टुकाशटीकतृणधान्यकैः । समांशैः
साधितः काथो हिंवाद्रकरसैर्युतः ॥
॥ ४५८ ॥ कर्णमूलोद्भवं शोथं हन्ति
मन्यागलाश्रयम् । कफवातज्वरं श्वासं
कासं हिक्कां हनुग्रहम् ॥ ४५९ ॥
दशमूलयुतो ह्येष सन्निपातज्वरं
जयेत् । अभिन्यासं समस्तञ्च कटुफ-
लादिर्नियच्छति ॥ ४६० ॥

कायफल, नागरमोथा, वच, पाठ, पोहकरमूल,
जीरा, पित्तपापडा, देवदारु, हरड, काकडाशिंगी,
पीपल, चिरायता, सोठ, भारङ्गी, इन्द्रजौ, कुटकी,
कचूर, सुगन्धतृण और धनियां इन सबको समान
भाग लेकर क्वाथ बनाकर हीङ्ग और अदरकका
रस मिलाकर पान करे तो कर्णमूलोत्पन्न सूजन,
गलाश्रित शोथ, कफवातज्वर, खांसी, ज्वास, हिचकी
और हनुस्तम्भादिरोग दूर होते हैं । इसमे दशमूलका
क्वाथ मिलाकर पीवे तो यह सन्निपातज्वर और
सर्वप्रकारके अभिन्यास ज्वरको दूर करता है ।
॥ ४५७ ॥ ४५८ ॥ ४५९ ॥ ४६० ॥

दारुनागरभूनिम्बधान्यतित्ताकलि-
ङ्गजैः । गजाह्वादशमूलाब्दैर्मृत्युकल्पं
ज्वरं जयेत् ॥ ४६१ ॥ अष्टादशाङ्ग
इत्येष सन्निपातज्वरापहः । कासह-
दग्रहपार्श्वार्तिश्वासहिक्कावमीर्हरेत् ४६२ ॥

देवदारु, सोठ, चिरायता, धनियां, कुटकी, इन्द्रजौ,
गजपीपल, दशमूल और नागरमोथा, इनके
क्वाथको अष्टादशाङ्गक्वाथ कहते हैं । यह अष्टादशाङ्ग
क्वाथ सन्निपातज्वरको नष्ट करता है तथा खांसी,
हृदयकी पीडा, पसलियोकी पीडा, ज्वास, हिचकी
और वमनको दूर करता है ॥ ४६१ ॥ ४६२ ॥

गुडूची चन्दनं पद्मनागरेन्द्रयवास-
कम् । अभयारग्वधोशरिपाठा धान्या-
ब्दरोहिणी ॥ ४६३ ॥ कषायं पायये-
देतत्पिप्पलीचूर्णसंयुतम् । तन्द्राकास-
ज्वरश्वासपिपासादाहनाशनः ॥ ४६४ ॥
विण्मूत्रानिलविष्टम्भान्निदोषप्रभवस्य
च । गुडूच्यादिगणो ह्येष पाचनो
दीपनः परः ॥ ४६५ ॥

गिलोय, लाल चन्दन, पद्माख, सोठ, इन्द्रजौ,
जवासा, हरड, अमलतास, खस, पाठ, धनियां,
नागरमोथा और कुटकी इनके क्वाथमे पीपलका
चूर्ण डालकर पान करानेसे तन्द्रा, खांसी, ज्वर,
ज्वास, पियास, दाह, त्रिदोषके कुपित होनेसे मल,
मूत्र और वायुका अवरोध ये दूर होते हैं । यह गुडू-
च्यादिगण पाचन और दीपन है ॥ ४६३ ॥ ४६४ ॥
॥ ४६५ ॥

अमृतादशमूलीभ्यां साधितं विधि-
वज्जलम् । सन्निपातज्वरं हन्यात्त्रयोद-
शविधं नृणाम् ॥ ४६६ ॥

गिलोय और दशमूलके द्वारा विधिपूर्वक सिद्ध-
किया हुआ काथ तेरह प्रकारके सन्निपातको नष्ट
करता है ॥ ४६६ ॥

विषशुण्ठी दशमूली छिन्ना पाठा च
पिप्पलीन्द्रयवैः । सकिरातात्तक्वासा
शमयति हतौजसं सद्यः ॥ ४६७ ॥

अतसी, सोंठ, दशमूल, गिलोय, पाठ, पीपल,
इन्द्रजौ, चिरायता और अड्डसा, इनका क्वाथ
ज्वरमे क्षणरोगीको तत्काल आरोग्य करता है ४६७

त्र्यषणदशमूलशुण्ठीभाङ्गीछिन्नोद्-
वोद्भवः काथः।पीतः शमयति सहसा
ज्वरमुग्रं सन्निपाताख्यम् ॥ ४६८ ॥

त्रिकुटा, दशमूल, सोंठ, भारंगी और गिलोय
इनका क्वाथ पान करनेसे शीघ्र ही सन्निपात ज्वर
दूर होता है ॥ ४६८ ॥

द्विपञ्चमूली षड्ग्रन्था विश्वा गृध्रनखी-
द्रयम् । कफवातहरः काथः सन्निपात-
हरः परः ॥ ४६९ ॥

दशमूल, वच, सोंठ, वेर और झडवेर (किसीके
मतसे कांआठोडी और मकोय) इनका काथ सन्नि-
पात ज्वरको नष्ट करता है ॥ ४६९ ॥

सिंहास्यपर्पटारिष्टं यष्टिधान्याकनाग-
रम् । दारुग्रगन्धेन्द्रयवाः श्वदंष्ट्रा-
ग्रन्थिकं तथा ॥ ४७० ॥ एषां कषायम-
हनि सन्निपातज्वरे पिबेत् । श्वासाति-
सारकासघ्नं शूलारुचिहरं परम् ४७१ ॥

✓अड्डसा, पित्तपापडा, नाम, मुलैठी, धानियां, सोंठ,
देवदारु, वच, इन्द्रजौ, गोखरू और पीपलामूल
इनका काथ वनाकर दिनमे पान करनेसे सन्निपात-
ज्वर, श्वास, अतिसार, खाँसी, शूल और अरुचि दूर
होती है ॥ ४७० ॥ ४७१ ॥

कटुफलं त्रिफला दारु चन्दनं सपरूष-
कम् । कटुकं पञ्चकोशीरं विपचेत्का-

षिकं जलम् ॥ ४७२ ॥ तत्सन्निपातदा-
हन्नं पानमात्रे प्रपूजितम् । दीर्घकाल-
प्रयुक्तानां ज्वरिणाममृतोपमम् ॥ ४७३ ॥

✓ कायफल, त्रिफला, देवदारु, चन्दन, फालसा,
त्रिकुटा, पद्माख और खस इनका काथ वनाकर पान
करनेसे सन्निपातज्वर और उसकी दाह दूर होती है ।
यह काथ बहुत दिनोंके ज्वरवाले मनुष्यके लिए
अमृतके समान है ॥ ४७२ ॥ ४७३ ॥

समुस्तं पञ्चमूलञ्च दद्याद्वातोत्तरे गदे।
भृशोष्णं वा सुखोष्णं वा दृष्ट्वा दोष-
बलाबलम् ॥ ४७४ ॥

पञ्चमूल और नागरमोथा इनका. काथ वनाकर
दोषोके बलाबलको विचार कर अधिक उष्ण अथवा
मंदोष्ण वातोल्वण सन्निपातज्वरमें देवे ॥ ४७४ ॥

कफोत्तरे बृहत्यादिगणश्च दशमूलजः।
परूषकाणि त्रिफला देवदारु सकटु-
फलम् । पित्तोत्तरे नृणामेतत्सन्निपाते
चिकित्सितम् ॥ ४७५ ॥

कफाधिक सन्निपातमें बृहत्यादिगणकी औषधि,
दशमूलकी औषधि, फालसेकी छाल, त्रिफला, देवदारु
और कायफल इनका काढा देवे ॥ ४७५ ॥

मुस्ता पर्पटकोशीरदेवदारुमहौष-
धम् । त्रिफला धन्वयासश्च नीली
कांपिल्लिकं त्रिवृत ॥ ४७६ ॥ किराताति-
क्तकं पाठा बला कटुकरोहिणी । मधुकं
पिप्पलीमूलं मुस्ताद्यो गण उच्यते
॥ ४७७ ॥ अष्टादशाङ्गमुदकं सन्निपा-
तज्वरापहम् ॥ ४७८ ॥ पित्तोत्तरे सन्नि-
पाते हितमुक्तं मनीषिभिः । मन्या-
स्तम्भ उरोघाते हनुस्तम्भे शिरो-
गदे ॥ ४७९ ॥

पित्ताधिक सन्निपातमे नागरमोथा, पित्तपापडा,
खस, देवदारु, सोंठ, त्रिफला, धमासा, नीलकी छाल,
कवीला, निसोत, चिरायता, पाठ, खिरैटी, कुटकी,
मुलैठी और पीपलामूल इन सब औषधियोंके समूहको
मुस्ताद्यगण कहते हैं । यह अष्टादशांग काथ सन्निपा-

तज्वरनाशक है, विशेष कर पित्तोत्थण सन्निपातमें अतीव हितकारी है तथा मन्यास्तम्भ, ऊरुस्तम्भ, हनुस्तम्भ और जिरोरोगमें अत्यन्त हितकारी है ॥४७६॥

॥ ४७७ ॥ ४७८ ॥ ४७९ ॥

व्योषाह्वत्त्रिफलारिष्टपटोलीतिक्तवत्सकैः । सभूनिम्बामृतापाठैस्त्रिदोषज्वरजिज्जलम् ॥ ४८० ॥

त्रिकुटा, त्रिफला, नीमकी छाल, पटोलपत्र, कुटकी, इन्द्रजौ, चिरायता, गिलोय और पाठ इनका काथ त्रिदोषजनित ज्वरको नष्ट करता है ॥ ४८०॥

विल्वकं तत्रवृता दन्ती समूलं चतुरङ्गुलम् । पक्कं कषायं विस्त्राव्य नीलीचूर्णविमिश्रितम् ॥ ससर्पिकं पित्रेत्तूर्णं सन्निपाते विरेचनम् ॥ ४८१ ॥

विलगिरी, निसोत, दंती और अमलतास, इनकी जड़के काथमें नीलका चूर्ण और घी मिलाकर पान करे तो सन्निपातरोगीको अच्छे प्रकारसे विरेचन हो जाता है ॥ ४८१ ॥

कम्पप्रलापनं यस्य संज्ञानाशश्च दारुणः । रसैश्च लाववतैश्च कलिङ्गैः शशतिन्त्रैः ॥ ४८२ ॥ तर्पयेत्प्राक्पुराणेन सर्पिषाऽभ्यंजयेदपि । बलारास्त्रागुडूच्याद्यैस्तैलैश्च परिषेचयेत् ॥ ४८३ ॥

जिस रोगीके कम्प हो, प्रलाप करे और संज्ञा जाती रहे तो उसको लवा, वटेर, चिडा, कवूतर और तीतर इनके मांसरसको पिलावे, पश्चात् रोगीके जरीरसे पुराने घीको मलकर तर्पण करे तथा खिरैटी, रायसन और गिलोय इत्यादिक द्वारा सिद्ध किया हुआ तेल जरीरमें लगावे ॥ ४८२ ॥ ४८३ ॥

तन्द्राके लक्षण ।

आचितामाशयकफे सन्निपातज्वरे दृढे । शान्तेऽप्यवश्यं तस्याशु तन्द्रा समुपजायते ॥ ४८४ ॥ अभिद्रवरसक्षीरदिवास्वप्निषेवणात् । दुर्बलस्याल्पवातस्य जन्तोः श्लेष्मा प्रकुप्यति ॥ ४८५ ॥ वायुमार्गं समावृत्य धमनीरनुसृत्य सः । तन्द्रां सुधोरां जनयेत्-

रया वक्ष्यामि लक्षणम् ॥ ४८६ ॥ उन्मीलितविनिर्भुग्ने परिवर्तिततारके । भवतस्तस्य नयने लुलिते चलपक्ष्मणी ॥ ४८७ ॥ निवृत्ताननदन्तोऽष्टं मुहुरुत्तानशायिनम् । पिच्छिलोच्छिन्नतन्तुश्च कण्ठे श्लेष्मास्य गच्छति ॥ ४८८ ॥ कण्ठमार्गविरोधश्च वैकृतं चोपजायते । सोऽर्वाक्त्रिरात्रं साध्यः स्यादसाध्यस्तु ततः परम् ॥ ४८९ ॥

आमाशयमें आम और कफके संचित होनेसे जो दृढ़ सन्निपात ज्वर उत्पन्न होता है उसके शांत होनेपर शीघ्रही तन्द्रा उत्पन्न होती है । पतले रस और दूध आदि पदार्थोंको सेवन करनेसे, दिनमें सोनेसे दुर्बल और अल्पवायुवाले मनुष्यके कफ कुपित होकर वायुके मार्गको रोककर धमनियोंने प्रवेश करके घोर तन्द्राको उत्पन्न करता है । अब उस तन्द्राके लक्षण कहता हूँ । तन्द्रावाले मनुष्यके नेत्र आधे मिचेसे अथवा टेढ़से प्रती हो, तारोंको इधर उधर फेरे, नेत्र जड़से हो जायँ तथा गिरेसे मालूम हो, पलक स्थिर हो जाय, होठ ऊपरको सिमट जायँ, दांत बाहरसे दीखने लगे, वारंवार चित्त होकर सोवे, चिपकता हुआ गाढे कफका टेंट मुखमें आवे और उससे कंठमार्ग रुक जाय, इसप्रकार अनेक विकार होते हैं । यह तन्द्रा तीन दिनतक तो साध्य है पश्चात् असाध्य हो जाती है ॥ ४८४ ॥ ४८५ ॥ ४८६ ॥ ४८७ ॥ ४८८ ॥ ४८९ ॥

ज्योतिष्मत्यार तथा तैलं मूलं पिण्डारकस्य च । तन्द्राविनाशनं श्रेष्ठं नस्यकर्मणि योजितम् ॥ ४९० ॥ सैन्धवं श्वेतमरिचं सर्षपः कुष्ठमेव च । मूत्रेण पिष्ट्वा बस्तस्य नस्यं तन्द्राविनाशनम् ॥ ४९१ ॥

मालकांगनीका तेल और पिण्डारकी जड़ दोनोंको एकत्र पीसकर नस्य देनेसे तन्द्रा दूर होती है । सैधानोन सैजिनके बीज सरसो और कूट इन सबको एकत्र बकरेके मूत्रमें पीसकर नास लेनेसे तन्द्रा दूर होती है ॥ ४९० ॥ ४९१ ॥

असुराह्वयगन्धस्य विट्चूर्णमधुसंगु-
तम् । अञ्जनाद्बोधयेन्मुग्धं तन्द्रितं स-
न्निपातिनम् ॥ ४९२ ॥ जातीपुष्पं प्रवा-
लञ्च मरिचं रोहिणी वचा । सैन्धवं व-
स्तमृत्वेण तन्द्रानाशनमुत्तमम् ॥ ४९३ ॥

✓ गंधक और विड्बलवणके चूर्णको शहदमे मिलाकर कांसेके पात्रमे विसकर नेत्रोंमे अंजन लगानेसे तन्द्रावाला रोगी चैतन्य हो जाता है । चमे-
लके फूल, मूंगा, कालीमिरच, कुटकी, वच और सेधानोन इन सबको एकत्र वकरके मूत्रमें पीसकर नाम देनेसे तन्द्रा दूर होती है ॥ ४९२ ॥ ४९३ ॥

अयोरजःश्वेतलोभ्रमञ्जनं मरिचं तथा ।
गोपित्तेन समायुक्तं तन्द्रानाशनमुत्त-
मम् ॥ ४९४ ॥

✓ लोहेका चूर्ण, सफेद लोध, अंजन, काली मिरच और गोरोचन इन सबको एकत्र पीसकर नेत्रोंमे अंजनेमे तन्द्रा दूर होती है ॥ ४९४ ॥

सन्निपातज्वरोत्पन्नां युक्त्या तन्द्रां
जयेद्विषक् । उपद्रवः कष्टतमो ज्वराणां
सविशेषतः ॥ ४९५ ॥

सन्निपात ज्वरमें उत्पन्न हुई तन्द्राको वैद्य बड़ी युक्तिसे जीते, क्योंकि ज्वरमे विशेषकर यह अत्यंत कष्टतम उपद्रव है ॥ ४९५ ॥

अभिन्यासज्वरके लक्षण ।

त्रयश्च कुपिता दोषा उरःस्रोतोऽनुगा
भृशम् । आमा विबद्धा ग्रथिता
बुद्धीन्द्रियमनोऽनुगाः ॥ ४९६ ॥
जनयन्ति महाघोरमभिन्यासं ज्वरं
नृणाम् । प्रस्तब्धगात्रस्त्ववाग्मी नष्ट-
चेष्टो न कांक्षते ॥ ४९७ ॥ न च दृष्टि-
भवेत्तस्य समर्था रूपदर्शने । न च गन्ध-
रसस्पर्शशब्दान्प्राप्याथ बुध्यते ॥ ४९८ ॥
शिरो लीठयतेऽभीक्षणमाहारं नाभि-
नन्दति । कूजते तुद्यते चैवं प्रतिप-
त्तिश्च हीयते ॥ ४९९ ॥ कलं प्रभाषते

किञ्चिदभिन्यासः स उच्यते । प्रत्या-
ख्येयः स भूयिष्ठं कश्चिदेवात्र
सिध्यति ॥ ५०० ॥

वातादि तीनों दोष कुपित होकर हृदयके स्रोतोमें प्राप्त होकर आमसे विबद्ध और ग्रथित होकर बुद्धि, इन्द्रिय और मनके अनुगामी होकर घोर अभिन्यास ज्वरका उत्पन्न करते है । इसके होनेसे रोगीके शरीरमे निश्चेष्टता, बोलनेमे असमर्थता, नेत्र और कानोंमें जडता, देखने, सूंघने, छूने और सुननेमें असमर्थता होती है । तथा वह शिगको इधर उधर पटकके, शयन करनेपर वारंवार करवटे-लेवे अर्थात् किसीप्रकार चैन नहीं हो, आहारमे अरुचि, कूजे, -उसके शरीरमें तोडनेकेसी पीडा हो और कंठसे थोडा बोले, इसको अभिन्यास सन्निपात कहते हैं । वह सन्निपातरोगी प्रायः नष्ट हो जाता है, कदाचित् कोई नरोग होता है ॥ ४९६-५०० ॥

सप्ताहं वा दशाहं वा द्वादशाहमथा-
पि वा । ते घ्नन्ति संहता धातोः
पाकान्मुञ्चन्ति चान्यथा ॥ ५०१ ॥

इस सन्निपातरोगमे सात दिनमे या दश दिनमें या बारह दिनमें धातुओका पाक होनेसे रोगीकी मृत्यु होती है और दोपोका पाक होनेसे रोगसे मुक्ति होती है ॥ ५०१ ॥

एतच्च हारीतस्त्वाह घ्नन्ति मुञ्चन्ति
वा नरम् । दिवसैर्द्विगुणैः सप्तनवैका-
दशभिः क्रमात् ॥ ५०२ ॥

अन्य आचार्य्य कहते है कि-धातु और दोषोके पचनेके अनुसार सन्निपात १४ या ९ अथवा ११ दिनमे मनुष्यको मारदेता है अथवा छोड देता है ५०२

दुर्गोऽभसि यथा मग्नं भाजनं त्वरया
बुधः । गृहीयान्तलमप्राप्तं तथाभिन्यास-
पीडितम् ॥ ५०३ ॥ निद्रोपेतमभि-
न्यासं क्षिप्रं विद्याद्धतौजसम् ॥ ५०४ ॥

जिसप्रकार अथाह जलमे गिरे हुए वर्तनको तलीमे पहुँचनेसे पहले ही पकड लेना चाहिये, उसीप्रकार अभिन्याससन्निपातसे पीडित रोगीका शत्रु ही यत्न

करना चाहिये, क्योंकि इसमें निद्राके आनेपर रोगी तत्काल हतवीर्य हो जाता है ॥ ५०३ ॥ ५०४

चिकित्सा ।

कारवीपुष्करैरण्डत्वायन्तीनागरामृताः । दशमूली शटी शृङ्गीवासाभाङ्गी पुनर्नवाः ॥ ५०५ ॥ तुल्या मूत्रेण निष्काथ्य पीता स्रोतोविशोधनम् । अभिन्यासज्वरायासमाशु घ्नन्ति समुद्धतम् ॥ ५०६ ॥

कलौजा, पोहकरमूल, अडकी जड, वनपसा, सोठ, गिलोय, दशमूल, कचूर, काकडाशिगी, अङ्गना, भारंगी और पुनर्नवा इन सबको समान भाग लेकर गोमूत्रमें काथ बनाकर पान करे तो सब शरीरके स्रोत शुद्ध होजाते हैं और शीघ्र ही अभिन्यास ज्वर नष्ट हो जाता है ॥ ५०५ ॥ ५०६ ॥

मातुलुङ्गाशमभिद्विल्वव्याघ्रीपाठारु-
बूकजः । काथो लवणमूत्राद्योऽभि-
न्यासानाह शूलनुत् ॥ ५०७ ॥

विजैरे नीवूकी जड, पापाणभेद, वेलगिरी, कटेरी, पाठ और अंडकी जड इनके काथमें गोमूत्र और सैधानोन मिलाकर पान करे तो अभिन्यासज्वर, आनाह और शूल दूर होता है ॥ ५०७ ॥

व्याघ्रीदुरालभाभाङ्गीशटीशृङ्गीसपौ-
ष्करम् । पक्वाम्बु श्लेष्महृदेयमभिन्यास-
प्रशान्तये ॥ ५०८ ॥

कटेरी, धमासा, भारंगी, कचूर, काकडाशिगी और पोहकरमूल इनका काथ पान करनेसे कफ और अभिन्यासज्वर दूर होता है ॥ ५०८ ॥

भाङ्गी पुष्करमूलश्च रास्ना बिल्वं समु-
स्तकम् । नागरं दशमूलश्च पिप्पली-
विषसाधितम् ॥ ५०९ ॥ हिंवाद्र्क-
रसोपेतं पिप्पलीचूर्णसंयुतम् । सन्निपा-
तज्वरं घोरमभिन्यासश्च दारुणम् ।
हृत्पार्श्वशूलमानाहं सद्यः पीतं निय-
च्छति ॥ ५१० ॥

भारंगी, पोहकरमूल, रायसन, वेलगिरी, नागर-
मोथा, सोठ, दशमूल, पीपल और अनीस इनके
काथमें हींग और अदरखका रस तथा पीपलका
चूर्ण डालकर पीवे तो घोर अभिन्यास सन्निपातज्वर,
हृदय और पसलियोंका शूल एवं अफारा तत्काल दूर
होता है ॥ ५०९ ॥ ५१० ॥

बीजपूरकविल्वाशमभेदकवृहतीद्वयम् ।
सकाशकं तथैरण्डं जले चाष्टगुणे
स्मृतम् ॥ ५११ ॥ पक्त्वा गोमूत्रसंपृक्तं
विडसौवर्चलान्वितम् । हृद्वास्तिशूल-
मानाहमभिन्यासे ज्वरे हितम् ५१२ ॥

विजैरे नीवूकी जड, वेलगिरी, पापाणभेद, कंटेरी,
बडी कंटेरी, काँस और अंडकी जड इन सबको
समान भाग लेकर अठगुने जलमें पकावे । जब
काथ तैयार हो जाय तब उसमें गोमूत्र, विडलवण
और काला नोन मिलाकर पान करे । इससे हृदय
और वस्तिका शूल, आनाह तथा अभिन्यासज्वर नष्ट
होता है ॥ ५११ ॥ ५१२ ॥

दन्तीं द्रवन्तीं वृहतीमैरण्डं बीजपूर-
कम् । श्यामां व्याघ्रीश्च निष्काथ्या-
भिन्यासे बहुवर्चसि ॥ ५१३ ॥

दंती, मूसाकर्णी, बडी कटेरी, अंडका जड विजैरे
नीवूकी जड, अनंतमूल और कटेरी इनका काथ
पान करनेसे अभिन्यास ज्वर और मलकी अविकता
दूर होती है ॥ ५१३ ॥

सिंही व्याघ्रमृता द्राक्षा अजाजी
सकटुत्रिकम् । शृङ्गी विडङ्गश्च समं
पक्त्वा विस्त्राव्य साधयेत् ॥ ५१४ ॥
घृताक्तैस्तण्डुलैर्भृष्टैः पेयामुष्णां ज्वरी
पिबेत् । हिकाश्वासी च कासी च
तथाभिन्यासपीडितः ॥ विबद्धवातः
विष्मूत्रः पानमेतत्प्रयोजयेत् ॥ ५१५ ॥

कटाई, बडी कटेरी, गिलोय, दाख, जीरा, त्रिकुटा,
काकडाशिगी और वायविडंग इन सबको समान
भाग लेकर काथ बनावे । फिर घीमें भुने हुए चाव-
लोंकी पेया बनाकर उस काथमें मिलाकर गरमा-

गरम पीवे इससे हिचकी, श्वास, खांसी, अभिन्यासज्वर, वायु, मल और मूत्रकी वृद्धता दूर होती है ॥ ५१४ ॥
॥ ५१५ ॥

**बृहती पौष्करं भार्ङ्गी शटी शृङ्गी
दुरालभा । पक्त्वा पानं प्रशंसन्ति
श्लेष्मा तेनोपशाम्यति ॥ ५१६ ॥**

बड़ी कटेरी, पोहकरमूल, भारंगी, कचूर, काकडा-
शिगी, धमासा, इनका काथ बनाकर पान करनेसे
कफ शांत होता है ॥ ५१६ ॥

**त्रिवृद्धिशालाकटुकात्रिफलारग्वधेः
कृतः । सक्षारो भेदनः काथः पेयः
सर्वज्वरापहः ॥ ५१७ ॥**

निसोत, इन्द्रायण, कुटकी, त्रिफला और अमल-
तास इनके काथमे जवाखार डालकर पान करे ।
यह भेदन और सर्वप्रकारके ज्वरोको हरनेवाला
है ॥ ५१७ ॥

**तिक्ताभयात्रिवृद्धन्तीफलं वै राजवृक्ष-
जम् । क्षाराढ्यः सैन्धवोपेतः काथो
भेदी ज्वरापहः ॥ ५१८ ॥**

कुटकी, हरड, निसोत, जमालगोटा और अमल-
तास इनके काथमे जवाखार और सैधानोन डालकर
पान करनेसे विरेचन होकर ज्वर दूर होता है ॥ ५१८ ॥

**आर्द्रकस्वरसोपेतं सिन्धूत्थं सकटुत्रि-
कम् । प्रबोधाय मुखे दद्यान्नस्यश्च
मरिचैर्न वै ॥ ५१९ ॥**

अदरखके रसमे सैधानोन और त्रिकुटके चूर्णको
मिलाकर चैतन्य करनेके लिये मुखमे धारण करे
अथवा काली मिरचोंको अदरखके रसमे पीसकर
नास लेवे ॥ ५१९ ॥

**मातुलुङ्गार्द्रकरसं कोष्णं त्रिलवणा-
न्वितम् । अन्यद्वा सिद्धविहितं नस्यं
तीक्ष्णं प्रयोजयेत् ॥ ५२० ॥**

विजौरै नीवू और अदरखके रसमे तीनों लवणोंके
चूर्णको मिलाकर कुछ गरम करके उसका अथवा
अन्यान्य तीक्ष्ण औषधियोंका नास देवे ॥ ५२० ॥

**शिरीषबीजगोमूत्रकृष्णामरिचसैन्धवैः ।
अञ्जनं स्यात्प्रबोधाय सरसोनशिला-
वचैः ॥ ५२१ ॥**

शिरसके बीज, पीपल, काली मिरच और सैधा-
नोन इन सबको एकत्र गोमूत्रमें पीसकर अंजन
बनावे । इस अंजनको नेत्रोंमें लगानेसे अथवा लशुन,
मैतसिल और वच इनका अंजन बनाकर नेत्रोंमें
लगानेसे चैतन्य उत्पन्न होता है ॥ ५२१ ॥

**शिरीषबीजं मरिचं बस्तमूत्रेण तत्स-
मम् । अञ्जनं तदभिन्यासे संज्ञाबोधन-
मिष्यते ॥ ५२२ ॥**

शिरसके बीज और काली मिरच इनको एकत्र
बकरेक मूत्रमें पीसकर नेत्रोंमें आजनेसे संज्ञा उत्पन्न
होती है ॥ ५२२ ॥

**मातुलुङ्गरसं तस्य हिंशुशुण्ठीयुतं
मुखे । दद्यात्प्रधमनं तीक्ष्णं कटुतिक्तो-
पसंहितम् ॥ ५२३ ॥**

विजौरैके रसमे हींग और सोठ मिलाकर मुखमें
धारण करे तथा तीक्ष्ण और चरपरी एवं कडवी
औषधियोंको नेत्र, नाक और कानमें फूँके ॥ ५२३ ॥

**पटोलपत्रं सुषवी बृहती कण्टका-
रिका । मरिचं पिप्पली बिल्वं चिर
बिल्वं सचित्रकम् ॥ ५२४ ॥ करञ्जबीजं
मञ्जिष्ठा त्रायन्ती विश्वभेषजम् ।
गलप्रबोधनं—श्रेष्ठमभिन्यासज्वरा
पहम् ॥ ५२५ ॥**

✓ पटोलपात, करेला, बड़ी कटेरी, कटेरी, कालीमिरच,
पीपल, बेलगिरी, करज, चीता, करंजबीज, मजीठ,
त्रायमाण और सोठ इनका काथ कंठको शुद्ध करता
है और अभिन्यासज्वरको नष्ट करता है ॥ ५२४ ॥
॥ ५२५ ॥

**करञ्जो बिल्वमञ्जिष्ठे त्रायन्त्यग्निः
पटोलकम् । बृहत्यौ सुषवी योषं
काथः स्याद्गलशोधनः ॥ ५२६ ॥**

✓ करंजकी छाल, बेलगिरी, मजीठ, त्रायमाण, चीता,
पटोलपात, बड़ी कटेरी, कटेरी, करेला और त्रिकुटा
इनका काथ कंठको शुद्ध करता है ॥ ५२६ ॥

१ लशुन मैतसिल और वचको उपरोक्त अंजनकी
औषधियोंमें ही मिलाकर अंजन करावे ।

चिकित्सा कृतेऽप्येवं यस्य संज्ञा न जायते । ललाटे पादयोर्वापि तस्य दाहः प्रशस्यते ॥ ५२७ ॥

इन सब उपरोक्त अंजन नस्य आदिके प्रयोग करनेसे भी संज्ञा उत्पन्न न हो अर्थात् वेहोशी दूर न हो तो लोहेकी सलाईको अग्निमें तपाकर रोगीके दोनो पाँच और ललाटमें दाग देवे ॥ ५२७ ॥

सन्निपातज्वरस्थान्ते कर्णमूले सुदारुणः । शोथः सञ्जायते तेन कश्चिदेव विमुच्यते ॥ ५२८ ॥

सन्निपातज्वरके अंतमें कानकी जड़में घोर सूजन उत्पन्न होती है, उस सूजनसे कोईरोगी बचता है ५२८

तं जयेच्छोधितस्त्रावैः सर्पिःपानप्रलेपनैः । प्रदाहेः कफपित्तघ्नैर्वमनैः क्वलग्रहैः ॥ ५२९ ॥

उसको रुधिरस्त्राव (जोक आदि लगाना), घृतपान, दाग देना, कफपित्तनाशक वमन और क्वलग्रह आदि उपचारोंसे जीते ॥ ५२९ ॥

जीर्णानां रक्तशालीनां ज्वरघ्नकाथसाधितः । प्रसृतस्त्वोदनो द्विस्त्रिः कार्थ्यो यूषादिकोऽपि वा ॥ ५३० ॥
स चेज्जीर्यत्यविघ्नेन ज्वरी जीवित्तदा श्रुवम् ॥ ५३१ ॥

ज्वरनाशक काथमें पुराने लाल गालिचावलोका भात अथवा यूषादिक दो या तीन प्रसृत परिमाण सिद्ध करके देवे, जो यह निर्विघ्न पचजाय तो रोगी निश्चय बच जाता है ॥ ५३० ॥ ५३१ ॥

गौरिकं पांशुकं शुण्ठीवचाकटुफलकाञ्जिकैः । कर्णशोथहरो लेपः सन्निपातज्वरे भृशम् ॥ ५३२ ॥

गेरु, धूल, सोंठ, बच कायफल इन सबको एकत्र कार्जामि पीसकर गरम करके कानकीज डूमे लगावे, इससे कर्णशोथ दूर होता है ॥ ५३२ ॥

आगन्तुकज्वर ।

अभिघाताभिचाराभ्यामभिशापाभिपद्गतः । आगन्तुर्जायते दोषैर्यथास्वन्तं विभावयेत् ॥ ५३३ ॥

अभिघात (तलवार, लाठी आदिकी चोट लगनेसे, या वृक्ष, पर्वतादिसे गिरनेसे, अभिचार(शत्रु के द्वारा किये हुए मरणादि प्रयोगोंके करनेसे), अभिशाप (गुरु आदिके शापसे) और अभिपंग(भूतादिककी बाधा और कामादिके वेगसे) इन सब कारणोंसे वातादिक दोष कुपित होकर आगन्तुक ज्वरको उत्पन्न करते हैं, वह आगन्तुक ज्वर—वात, पित्त और कफ इन भेदोंसे तीन प्रकारका है जिस दोषकी अधिकता हो उसे जानते ॥

श्यावास्यता विषकृते दाहोऽतीसार एव च । भक्तारुचिः पिपासा च तोदश्च सह मूर्च्छया ॥ ५३४ ॥ औषधीगन्धजे मूर्च्छा शिरोरुग्बमथुस्तथा ॥ ५३५ ॥

विषके योगसे उत्पन्न हुए ज्वरमें मुखपर कालापन, दाह, अतिसार, भोजनमें अरुचि, तृषा, तोडने केसी पीड़ा और मूर्च्छा यह सब लक्षण होते हैं ५३४ औषधीकी गंधसे जो ज्वर आता है उसमें मूर्च्छा, शिरोरोग और वमन ये सब लक्षण होते हैं ॥ ५३५ ॥

कामजे चित्तविभ्रंशस्तन्द्रालस्यमभोजनम् । हृदये वेदना चास्यं गात्रञ्च परिशुष्यति ॥ ५३६ ॥

कामज्वरमें चित्तभ्रम होना, तन्द्रा, आलस्य, भोजनमें अरुचि, हृदयमें पीड़ा और शरीरका सूखना ये सब लक्षण होते हैं ॥ ५३६ ॥

भयात्प्रलापः शोकाच्च भवेत्कोपाच्च वेपथुः । अभिचाराभिशापाभ्यां मोहस्तृष्णा च जायते ॥ भूताभिषङ्गादुद्वेगो हास्यरोदनकम्पनम् ॥ ५३७ ॥

भय और शोकसे उत्पन्न हुये ज्वरमें रोगी प्रलाप करता है, कोपसे उत्पन्न हुये ज्वरमें कोपता है, अभिचार और अभिशापसे उत्पन्न हुये ज्वरमें मोह और तृषा होती है, भूतवाधासे उत्पन्न हुये अभिपंग ज्वरमें उद्वेग, हास्य, रोना और कम्प होता है ॥ ५३७ ॥

कामशोकभयाद्वायुः क्रोधात्पित्तत्रयो मलाः । भूताभिषङ्गात्कुप्यन्ति भूतसामान्यलक्षणाः ॥ ५३८ ॥

काम, शोक और भयसे वात कुपित् होती है, क्रोधसे पित्त कुपित होता है, एवं भूतवाधासे तीनों

दोष कुपित होते हैं और वे ही भूतोंके सामान्य लक्षण होते हैं, (जिस भूतका जैसा लक्षण हो तत्समान लक्षण हो जाता है) ॥ ५३८ ॥

अभिचाराभिशापोत्थौ ज्वरौ होमा-
दिभिर्जयेत् । दानस्वस्त्ययनातिथ्यै-
रुत्पातग्रहपीडजौ ॥ ५३९ ॥

अभिचार और अभिशापसे उत्पन्न हुये ज्वरको होम, दान, स्वस्तिवाचन, पुण्याहवाचन और अतिथि पूजनसे जीते ॥ ५३९ ॥

भूतविद्यासमुद्दिष्टैर्बन्धावेशनताडनैः ।
जयेद्द्रुताभिषङ्गोत्थं मनःस्वास्थ्यैश्च
मानसैः ॥ ५४० ॥

भूताभिर्पंगोत्थ ज्वरको बंध, आवेशन और ताड-
नादि कर्मोंसे जीते और मानसिक ज्वरको मनको
स्वस्थ करनेसे जीते ॥ ५४० ॥

औषधीगन्धविषजौ विषपित्तप्रबा-
धनैः । जयेत्कषायैर्मतिमान्सर्वगन्ध-
कृतैर्भिषक् ॥ ५४१ ॥

औषधि और विषकी गन्धसे उत्पन्न हुये ज्वरको
विष और पित्तनाशक औषधियोंसे अथवा सम्पूर्ण सुगं-
न्धित औषधियोंके काथसे जीते ॥ ५४१ ॥

क्रोधजे पित्तजित्काम्ये नाय्याः सद्वा-
क्यमेव च । आश्वासेनेष्टलाभेन वायोः
प्रशमनेन च । हर्षणैश्च शमं यान्ति
कामशोकभयज्वराः ॥ ५४२ ॥ कामा-
त्क्रोधज्वरो नाशं क्रोधात्कामसमु-
द्भवः । याति ताभ्यामुभाभ्याश्च भय-
शोकसमुत्थितः ॥ ५४३ ॥

क्रोधसे उत्पन्न हुये ज्वरमें पित्तनाशक क्रिया
और कामज्वरमें सुन्दर स्त्रियोंके मधुरवचनोके द्वारा
उपचार करे । समझानेसे—धीरज बंधानेसे, इष्टपदा-
र्थोंके मिलनेसे, वातनाशक यत्नोसे और हर्षजनक वार्ता
अथवा अन्य हर्षजनक पदार्थोंसे काम, शोक और
भयसे उत्पन्न हुआ ज्वर दूर होता है । कामसे क्रोध-
ज्वर नष्ट होता है और क्रोधसे कामज्वर नष्ट होता
है तथा काम और क्रोधसे भयज्वर एवं शोकज्वर दूर
होता है ॥ ५४२ ॥ ५४३ ॥

विसर्पेण ज्वरो यश्च यश्च विस्फोटक-
ज्वरः । तत्रादौ सर्पिषः पानं कफपि-
त्तोत्तरे भवेत् ॥ ५४४ ॥ निम्बदारु-
कषायं वा हितं सौमनसं तथा । श्रम-
क्षयोत्थे भुञ्जीत घृताभ्यक्तं रसौद-
नम् ॥ ५४५ ॥

जिसके विसर्पसे अथवा विस्फोटकसे कफपित्ता-
धिक ज्वर उत्पन्न हो तो उसको प्रथम घृत पान
करावे, पश्चात् नीमकी छाल और देवदारुका काथ
पिलावे अथवा चमेलीके पत्तोंका काथ पान करावे,
श्रम और क्षयसे उत्पन्न हुये ज्वरमें घृतसंयुक्त रसोदन
को भक्षण करे ॥ ५४४ ॥ ५४५ ॥

रोगोत्थानप्रकोपाभ्यां यो ज्वरो
जायते नृणाम् । शमयेत्पाचयेद्वापि
यथायोगैश्चिकित्सकः ॥ ५४६ ॥

अन्यान्य रोगोंके उत्पन्न होनेसे अथवा कुपित
होनेसे जो ज्वर उत्पन्न होता है उसमें यथादोषानुसार
शमन और पाचन औषधि देवे ॥ ५४६ ॥

स्त्रीणामप्यप्रजातानां प्रजातानां
तथाऽहितैः । स्तन्यावतरणे चैव ज्वरो
दोषैः प्रकुप्यति । तस्य प्रशमनं कार्यं
यथादोषविधानतः ॥ ५४७ ॥

पुत्रवाली अथवा विनापुत्रवाली स्त्रियोंके अहित-
कारक कारणोंसे और स्तनोमें दूध प्रवर्तन होनेसे दोष
कुपित होकर ज्वरको उत्पन्न करते हैं, उसमें यथा-
दोषानुसार औषधि देनी चाहिये ॥ ५४७ ॥

अभिघातज्वरे कुर्यात्क्रियामुष्ण-
विवर्जिताम् । कषायमधुरस्निग्धां
यथादोषमथापि वा ॥ ५४८ ॥

अभिघातज्वरमें उष्णवर्जित अर्थात् शीतल क्रिया
तथा दोषानुसार कपैली, मधुर और स्निग्ध औषधि
देवे ॥ ५४८ ॥

अभिघातज्वरो नश्येत्पानाभ्यङ्गेन
सर्पिषः । मेध्यैर्द्रव्यैश्च सात्म्यश्च तथा
मांसरसोदनैः ॥ ५४९ ॥

अभिघात ज्वरने घृतपान करावे और उसके शरीर पर घृतकी मालिश करावे तथा रोगीकी प्रकृतिके अनुसार मेधाजनक और सात्म्य मांसरस और भात आदि द्रव्य देवे ॥ ५४९ ॥

व्यधबन्धश्रमात्यध्वभङ्गभ्रंशसमुद्भवान्
ज्वरानुपाचरेत्पूर्वं सुस्निग्धक्षीर
भोजनैः ॥ ५५० ॥

व्यध (वेध, छेदन, भेदन), बन्धन (बाँधना), परिश्रम (अधिकमार्गका चलना) और गिरनेसे शरीर भंग होने पर इन कारणोंसे उत्पन्न हुए ज्वरमें प्रथम स्निग्ध और दूधका भोजन देवे ॥ ५५० ॥

इति आगन्तुकज्वरचिकित्सा ।

विषमज्वर ।

—५५१—

दोषोऽल्पोऽहितसम्भूतो ज्वरोत्सृष्टस्य
वा पुनः । धातुमन्यतमं प्राप्य करोति
विषमज्वरम् ॥ ५५१ ॥

ज्वरसे युक्त हुये मनुष्यके अल्पदोष भी कुपय आहारादि द्वारा कुपित होकर रक्तादि किसी धातुमें प्राप्त होकर विषमज्वरको उत्पन्न करते हैं ॥ ५५१ ॥

संततः सततोऽन्येद्युस्तृतीयकचतु-
र्थकौ । सन्ततो रसधातुस्थः सततो
रक्तधातुगः । भिषजा चैव विज्ञेयः
सोऽन्येद्युः पिशिताश्रितः ॥ ५५२ ॥
भेदोगतस्तृतीयेऽद्भि ह्यस्थिमज्जागतः
पुनः । कुर्याच्चतुर्थिकं घोरमंतकं
रोगसंकरम् ॥ ५५३ ॥

वह विषमज्वर, संतत, सतत, अन्येद्युष्क, तृतीयक और चातुर्थिक इन भेदोंसे पांच प्रकारका है । वे दोष रसमें प्राप्त होकर संततज्वरको उत्पन्न करते हैं, रक्त धातुमें प्राप्त होकर सततज्वरको उत्पन्न करते हैं, मांसमें प्राप्त होकर अन्येद्युष्कज्वरको उत्पन्न करते हैं, मेदमें जाकर तृतीयकज्वरको उत्पन्न करते हैं, अस्थि और मज्जामें प्राप्त होकर मृत्युस्वरूप रोगसंकर चातुर्थिकज्वरको उत्पन्न करते हैं ॥ ५५२ ॥ ५५३ ॥

सप्ताहं वा दशाहं वा द्वादशाहमथा-
पि वा । सन्तत्यायोऽविसर्गी स्या-
त्सन्ततः स निगद्यते ॥ ५५४ ॥

सात या दश अथवा बारह दिनमें जो बराबर एक सा चढ़ा रहै, घटे वढ़े नहीं उसको संततज्वर कहते हैं ॥ ५५४ ॥

अहोरात्रे सततको द्वौकालावनुवर्तते।
अन्येद्युष्कस्त्वहोरात्रादेककालं प्रव-
र्तते ॥ ५५५ ॥ तृतीयकस्तृतीयेऽद्भि
चतुर्थेऽद्भि चतुर्थकः । केचिद्भूताभिष-
ङ्गोत्थं ब्रुवते विषमज्वरम् ॥ ५५६ ॥

✓ सततज्वर दिन रात दो समयमें दोवार आता है, अन्येद्युष्कज्वर रातदिनमें एकवार आता है । तृतीयक ज्वर तीसरे दिन आता है और चातुर्थिकज्वर चौथे दिन आता है । कोई वैद्य भूताभिषंगोत्थ ज्वरको विषमज्वर कहते हैं ॥ ५५५ ॥ ५५६ ॥

यः स्यादनियतात्कालाच्छीतोष्णा-
भ्यां तथैव च । वेगतश्चापि विषमः स
ज्वरो विषमः स्मृतः ॥ ५५७ ॥

✓ जो ज्वर शीत और उष्ण कारणोंसे बिना समय आ जाय और जिसका वेग भी विषम हो उसको विषम ज्वर कहते हैं ॥ ५५७ ॥

कफपित्तात्रिकग्राही पृष्ठाद्वातकफा-
त्मकः । वातपित्ताच्छिरोग्राही
त्रिविधः स्यात्तृतीयकः ॥ ५५८ ॥

✓ अब तृतीयकज्वरके तीन भेद कहते हैं, जो तृतीयक ज्वर कफपित्तसे उत्पन्न होना है वह प्रथम त्रिक-स्थानसे प्रकट होकर सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त हो जाता है । जो वात कफसे उत्पन्न होता है, वह प्रथम पीठसे प्रकट होकर सब शरीरमें फैल जाता है और जो तृतीयकज्वर वातपित्तसे उत्पन्न होता है वह प्रथम शिरसे प्रकट होकर सर्वशरीरमें विस्तृत हो जाता है ॥ ५५८ ॥

चातुर्थिको दर्शयति प्रभावं द्विविधं
ज्वरः । जङ्घाभ्यां श्लेष्मिकः पूर्वं शिर-
सोऽनिलसम्भवः ॥ ५५९ ॥

चातुर्थिकज्वर अपने प्रभावको दो प्रकारसे दिखाता है, कफज्वर पहले जंघासे उत्पन्न होकर पश्चात् सब शरीरमें फैलता है और वातजं चातुर्थिक ज्वर प्रथम शिरसे उत्पन्न होकर पश्चात् सब शरीरमें व्याप्त होता है ॥ ५५९ ॥

विषमज्वर एवान्यश्चातुर्थिकविपर्ययः। अस्थिमज्जागतैर्दोषैश्चातुर्थिकविपर्ययः । स मध्ये ज्वरयत्यहो ह्यादावन्ते विमुञ्चति ॥ ५६० ॥

✓ एक और चातुर्थिक ज्वरसे विपरीत विषमज्वर होता है, वह चातुर्थिकज्वर विपरीत विषमज्वर अस्थि और मज्जामें जव दोष प्राप्त होते है तब उत्पन्न होता है, वह ज्वर पहिले और पीछेके दो दिनोंको छोडकर बीचके दो दिनोंमें आता है ॥ ५६० ॥

समौ वातकफौ यस्य हीनपित्तस्य देहिनः । भवेत्तीक्ष्णो मृदुर्वापि ज्वरस्तस्य तु रात्रिजः ॥ ५६१ ॥

जिसके शरीरमें वात और कफ समान हों और पित्त हीन हो उसको रात्रिमें तीक्ष्ण अथवा मृदु ज्वर आता है ॥ ५६१ ॥

ज्वरास्तु विषमाः सर्वे सन्निपातसमुद्भवाः । यथोत्वणस्य दोषस्य तेषां कार्यं चिकित्सितम् ॥ ५६२ ॥

✓ सम्पूर्ण विषमज्वर सन्निपातसे उत्पन्न होते है । उनमें जो दोष अधिक हो उसीके अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ५६२ ॥

विषमज्वरनाशाय चिकित्सा वक्ष्यतेऽधुना । वातप्रधानं सर्पिर्भिर्वस्तिभिः सानुवासनैः । स्निग्धोष्णैरन्नपानैश्च शमयेद्विषमज्वरम् ॥ ५६३ ॥

✓ अब विषमज्वरको नाश करनेके लिये चिकित्सा कहते है—वाताधिक विषमज्वरको घृतपान और अनुवासन वस्ति तथा स्निग्ध और उष्ण अन्नपानोसे शांत करे ॥ ५६३ ॥

विरेचनेन पयसा सर्पिषा संस्कृतेन च । विषमं तिक्तशीतैश्च ज्वरं पित्तोत्तरं जयेत् ॥ ५६४ ॥

पित्ताधिक विषमज्वरमें गरम दूधमें घी मिलाकर विरेचनके लिये देवे; तथा तिक्त और शीतलपदार्थोंसे पित्ताधिक विषमज्वरको नष्ट करे ॥ ५६४ ॥

वमनं पाचनं रूक्षमन्नपानं विलंघनम् । कषायोष्णन्तु विषमेज्वरे शस्तं कफोत्तरे ॥ ५६५ ॥

✓ कफाधिक विषमज्वरमें वमन, पाचन, रूखे अन्न और पान, लंघन और उष्ण औषधियोंके काथ सब विषमज्वरमें हितकारक है ॥ ५६५ ॥

त्रायन्तीकुटुकानन्तासारिवाभिः शृतं जलम् । सन्तताद्ये ज्वरे देयं वातादीनां निवृत्तये ॥ ५६६ ॥

त्रायमाण, कुटकी, अनंतमूल और गौरीसर इनका काथ बनाकर संततादि ज्वरोंमें वातादि दोषोंको दूर करनेके लिये देवे ॥ ५६६ ॥

द्राक्षापटोलनिम्बाब्दशक्राह्वात्रिफलाशृतम् । जलं जन्तुः पिवेच्छीतमन्येद्युर्ज्वरशान्तये ॥ ५६७ ॥

✓ दाख, परवल, नीमकी छाल, नागरमोथा, इन्द्रजौ और त्रिफला इनका काथ शीतल करके पान करनेसे अन्येद्युर्ज्वर शान्तये ॥ ५६७ ॥

पटोलारिष्टमृद्धीकाशम्याकं त्रिफलावृषम् । क्वाथ एकाहिकं हन्ति शर्करामधुयोजितः ॥ ५६८ ॥

✓ पटोलपत्र, नीमकी छाल, दाख, अमलतास, त्रिफला और अडूसा इनके काथमें मिश्री और शहद मिलाकर पान करे तो एकाहिकज्वर दूर होता है ॥ ५६८ ॥

षोडशाष्टचतुर्भागं वातपित्तकफार्त्तिषु । क्षौद्रं कषाये दातव्यं विपरीता तु शर्करा ॥ ५६९ ॥

✓ वातोत्वण विषमज्वरको नष्ट करनेके लिये काथमें मधु सोलह भाग डालना चाहिये। पित्तोत्वण विषमज्वरमें शहद आठ भाग डालना चाहिये और कफोत्वण विषमज्वरमें शहद चार भाग डालना चाहिये और मिश्री इससे विपरीत डालनी चाहिये ॥ ५६९ ॥

पटोलेन्द्रवानन्तापथ्यारिष्टामृताज-
लम् । ज्वरं सततकं पानं निहन्त्याशु
प्रयोजितम् ॥ ५७० ॥

पटोलपत्र, इन्द्रजौ, अनंतमूल, हरड, नीमकी
छाल और गिलोय इनके काथको पान करनेसे सतत-
ज्वर नष्ट होता है ॥ ५७० ॥

उशीरं चन्दनं मुस्तं गुडूचीधान्य-
नागरम् । अम्भसा कथितः पेयः शर्क-
रामधुयोजितः । ज्वरे तृतीयके पुंसां
तृष्णादाहसमन्विते ॥ ५७१ ॥

खस, लाल चन्दन, नागरमोथा, गिलोय, धनियां
और सोठ इनके काथमें शहद और मिश्री मिलाकर
पान करनेसे तृषा और दाहसंयुक्त तृतीयक ज्वर दूर
होता है ॥ ५७१ ॥

स्थिरासामलकीदारुशिवावृषमहौ-
षधैः शतं शीतं जलं दद्यात्सितामधु-
विमिश्रितम् । चातुर्थिके ज्वरे तीव्रे
मन्दे चैवाथ पावके ॥ ५७२ ॥

सालपर्णी, आमले, देवदारु, हरड, अडूसा और
सोठ इनके काथमें मिश्री और शहद मिलाकर पान
करे तो चातुर्थिकज्वर और मंदाग्नि नष्ट होती है ५७२

शैलूषमण्डनरजो वयसानुरूपं शुभ्रा-
ङ्गवत्ससुरभीपयसा निपीतम् । आदि-
त्यवारभवपालदिने नरेण चातुर्थिकं
सुचिरजं जयति क्षणेन ॥ ५७३ ॥ का-
लिङ्गकः पटोलस्य पत्रं कटुकरोहिणी ।
पटोलं शारिवा मुस्तं पाठा कटुक-
रोहिणी ॥ ५७४ ॥ निम्बः पटोलं
त्रिफला मृद्रीका मुस्तवत्सकौ । किरा-
तनिक्तममृता चन्दनं विश्वभेषजम्
॥ ५७५ ॥ गुडूच्यामलकं मुस्तमर्धश्लो-
कसमापनाः । कषायाः शमयन्त्याशु
पञ्च पञ्चविधं ज्वरम् ॥ ५७६ ॥

गोणीहरिताल भस्मको तरुण तथा सफेद बडडेवाली
गौके दूधके साथ रविवारकी पालीके दिन पान करे
तो दृष्ट दिनोंका चातुर्थिकज्वर नष्ट होता है ।

कुडेकी छाल, पटोलपत्र, और कुटकी इनका काथ
(१) पटोलपत्र, अनंतमूल, नागरमोथा, पाद और
कुटकी इनका काथ (२) नीमकी छाल, त्रिफला,
दाख, नागरमोथा और कुडेकी छाल इनका काथ
(३) चिरायता, गिलोय, चन्दन और सोठ इनका काथ
(४) गिलोय, आमले और नागरमोथा इनका काथ
(५) यह पांच काथ कहे ह, इनमेंसे किसी एक काथका
पान करनेसे पाँचों प्रकारके निपमज्वर दूर होते हैं
॥ ५७३ ॥ ५७४ ॥ ५७५ ॥ ५७६ ॥

कल्कः शिरीषपुष्पस्य रजनीद्रय-
संयुतः । नस्यं सर्पिःसमायोगाज्ज्वरं
चातुर्थिकं जयेत् ॥ ५७७ ॥

सिरसके फूल, दारुहलदी और हलदी इनका
कल्क बनाकर घी मिलाकर नास लेवे तो चातुर्थिक
ज्वर दूर होता है ॥ ५७७ ॥

अगस्त्यपत्रस्वरसेन नस्यं निहन्ति
चातुर्थिकमुग्रवीर्यम् ॥ ५७८ ॥

अगस्तियाके पत्तोंके स्वरसका नास लेनेसे चातु-
र्थिक ज्वर दूर होता है ॥ ५७८ ॥

सहदेवाया मूलं विधिना कण्ठानिबद्ध-
मपहरति । एकद्वित्रिचतुर्भिर्दिवसै-
र्भूतज्वरं पुंसाम् ॥ ५७९ ॥

✓ सहदेवीकी जडको विधिपूर्वक कंठमें बाँधनेसे
एकाहिक, द्वाहाहिक, त्र्याहिक और चातुर्थिक ज्वर दूर
होता है ॥ ५७९ ॥

सितवर्षाभूमूलं पयसा पीतं च वैत्तिकं
जयति । चातुर्थिकं सुचिरजं ताम्बू-
लेनैव भक्षणादथवा ॥ ५८० ॥

✓ सफेद विषखपरेकी जडको दूधके साथ पान कर-
नेसे अथवा पानमें रखकर भक्षण करनेसे बहुत
दिनोंका चातुर्थिकज्वर दूर होता है ॥ ५८० ॥

कृष्णामलकीरामठदावीवचाराजसर्ष-
परसोनैः । छागलमूत्रसुपिष्टैर्नस्यं
त्वैकाहिकादिघ्नम् ॥ ५८१ ॥

पीपल, आमले, हींग, दारुहलदी, वच, राई और
लहसुन इनको एकत्र बकरीके मूत्रमें पीसकर नास
लेनेसे एकाहिक ज्वर नष्ट होता है ॥ ५८१ ॥

वन्दाकं विषजातञ्च तक्रेण विषमज्वरे।
सर्पिषा दधिमण्डेन हिंशुना च प्रयो-
जयेत ॥ ५८२ ॥

विषके वृक्षसे उत्पन्न हुये वदेको लेकर तक्रके साथ, घीके साथ या दहीके तोडके साथ अथवा हींग के साथ सेवन करे तो इससे विषमज्वर नष्ट होता है ॥ ५८२ ॥

पिप्पली शर्करा क्षौद्रं शृतं क्षीरं घृतं
नवम् । खजेन मथितं पेयं विषमज्वर-
नाशनम् ॥ ५८३ ॥

पीपल, मिश्री, गहद, औटाया हुआ दूध और तैनी बी इन सबको करछीसे एकत्र मिलाकर पान करनेसे विषमज्वर नष्ट होता है ॥ ५८३ ॥

क्षीराविकारजनिमर्दकसत्रयाणां मूलं
ज्वरापहमवश्यमिदं शिखायाम् ।
बद्धं दिवाकरदिनेऽप्यथवाष्टमीपु रात्रि-
ज्वरं हरति रञ्जितसूत्रबद्धम् ॥ ५८४ ॥

✓ दुद्धी, हल्दी और कसौंदी इन तीनोंकी जडोको रंगे हुए सूतमे लपेट कर आदित्यवारके दिन अथवा अष्टमीके दिन चोटोमें बाँधनेसे रात्रिज्वर दूर होता है ॥ ५८४ ॥

घृतं पयः शर्करा च पिप्पलयो मधुस-
र्पिषा । पञ्चसारमिदं देयं मथितं विष-
मज्वरे ॥ क्षतक्षीणे क्षये कासे हृद्रोगे
चापि शस्यते ॥ ५८५ ॥

घी, दूध, मिश्री, पीपल और गहद इनको घीमे मर्दन कर सेवन करे तो विषमज्वर दूर होता है, यह पंचसार क्षतक्षीण, क्षय, खाँसी और हृदयरोगमे भी हितकारी है ॥ ५८५ ॥

मुस्तामलकगुडूचीविश्वौषधिकण्टका-
रिकाकाथः । पीतः सकणाचूर्णः समधु-
र्विषमज्वरं हन्ति ॥ ५८६ ॥

✓ नागरमोथा, आमले, गिलोय, सोंठ और कटेरी इनके काथमे पीपलका चूर्ण और गहद मिलाकर पान करे तो विषमज्वर नष्ट होता है ॥ ५८६ ॥

रसेनकल्कं तिलतैलमिश्रं योऽश्नान्ति
नित्यं विषमज्वरार्त्तः । प्रमुच्यते सोऽ-
प्यचिराज्ज्वरेण वातामयैश्चापि सु-
घोररूपैः ॥ ५८७ ॥

लहसुनके कल्कको तिलके तेलमें मिलाकर नित्य सेवन करनेसे बहुतदिनोका पुराना घोर विषमज्वर और वातरोग दूर होते है ॥ ५८७ ॥

जीरकं गुडसंयुक्तं विषमज्वरनाश-
नम् । अग्निमांघ्रं जयेच्छीघ्रं वातरोगा-
पहं मतम् ॥ ५८८ ॥

जीरेको गुडमे मिलाकर सेवन करे तो विषमज्वर नष्ट होता है तथा मंदाग्नि और वातरोग नष्ट होते है ॥ ५८८ ॥

✓ वर्द्धमान पिप्पलि ।

क्षीरेण पञ्चवृद्ध्या वा दुग्धान्नाशी
कर्णां पिबेत् । यावत्पूर्णं शतं तत्स्या-
त्तथा चैवापकर्षयेत् ॥ वातास्रश्वास-
पाण्डुशोऽगुल्मशोफोदरापहम् ॥ ५८९ ॥

पहले दिन दूधके साथ ५ पीपलोंको पीसकर पीवे फिर दूसरे दिन १० पीपलोंको दूधके साथ पीवे, इसीप्रकार प्रतिदिन ५-५ पीपल पीवे और इस पर दूध और चावल भोजन करे. जब सौ पीपल पूरी होजावे तो उसी क्रमसे पाँच २ घटाता जाय, इससे वातरक्त, श्वास, पाण्डु, ववासीर, गुल्म, सूजन, उदररोग और विषमज्वर नष्ट होते है ॥ ५८९ ॥

विषमज्वरेषु कर्त्तव्यमूर्ध्वं चाधश्च
शोधनम् । शान्तिं नयेत्त्रिवृत्त्रापि सक्षौ-
द्रा विषमज्वरम् ॥ ५९० ॥

सब प्रकारके विषमज्वरोंमें प्रथम ऊर्ध्वशोधन(वमन) और अधःशोधन (विरेचनादि) करावे । निसोतके चूर्णमे गहद मिलाकर भक्षण करनेसे विषमज्वर नष्ट होता है ॥ ५९० ॥

सुरा समंडाः पानार्थं भक्षार्थं चरणा-
युधाः । तित्तिराश्च मयूराश्च प्रयोज्या
विषमज्वरे ॥ ५९१ ॥

विषमज्वरमे रोगीको पीनेके लिये मदिरा और मांड देवे और भोजनके लिये मुरगा, तीतर और मोर इनका मांस देवे ॥ ५९१ ॥

अङ्गवङ्ग त्रिलिङ्गेषु सौराष्ट्रमगधेषु च ।
वाराणस्याश्च यद्दत्तं तत्तद्वैकाहिके
स्मरेत् ॥ ५९२ ॥

अंग, वंग, कलिंग, सौराष्ट्र, मगध और वाराणसी
(बनारस) इन नगरोंमें दियेहुए दानका स्मरण कर-
नेसे एकाहिक विषमज्वर दूर होता है ॥ ५९२ ॥

योऽसौ सरस्वतीतीरे अपुत्रस्तापसो
मृतः । तस्मै तिलोदकं दद्यान्मुञ्चत्ये-
काहिको ज्वरः ॥ ५९३ ॥

सरस्वतीनदीके तीरपर जो पुत्रहीन तपस्वी मरा हा
उसके लिये तिलाञ्जलि देनेसे एकाहिकज्वर दूर होता
है ॥ ५९३ ॥

एतन्मन्त्रेण वाश्वत्थपत्रहस्तः प्रतर्प-
येत् ॥ ५९४ ॥

अथवा “योऽसौ सरस्वती तीरे”—इत्यादि इस मंत्र
से हाथमें पापलके पत्तेको लेकर तर्पण करे ॥ ५९४ ॥

आम्लोटजसहस्रेण दलेन सुकृतां
पिबेत् । पेयां घृतप्लुतां जन्तुश्चालु-
र्थिकहरीं त्र्यहम् ॥ ५९५ ॥

अमन्तक वृक्षके एक हजार पत्तोंको घी चुपडकर
जलमें पीसकर पान करनेसे चातुर्थिक और त्र्याहिक
ज्वर नष्ट होता है ॥ ५९५ ॥

सैन्धवं पिप्पलीनाश्च तण्डुलाः समनः-
शिलाः । नेत्राञ्जनं तैलपिष्टं शस्यते
विषमज्वरे ॥ ५९६ ॥

सैवानोन, पीपलके चावल और मैतिल इनको
एकत्र तेलमें पीसकर अंजन लगानेसे विषमज्वर दूर
होता है ॥ ५९६ ॥

ऊर्णनाभेश्च जालेन कज्जलं ग्राहये-
च्छनेः । अञ्जयेन्नेत्रयुगुलं द्रवाहिकन्तु
ज्वरं जयेत् ॥ ५९७ ॥ निम्बपत्रं वचा
कुष्ठं पथ्या सिद्धार्थकं घृतम् । विष-
मज्वरनाशाय गुग्गुलुश्चेति धूपनम् ॥
॥ ५९८ ॥ वैडालं वा शकृच्छ्रेष्ठं वैपमा-
नस्य धूपने ॥ ५९९ ॥ सद्देवीवचा

भद्रानाकुलीभिः प्रधूपनम् । प्रदेहोद्धर्तनं
कुर्व्यादेभिर्वा ज्वरशान्तये ॥ ६०० ॥

मकड़ीके जालेको जलाकर कज्जल बनाकर नेत्रों
में लगानेसे द्रवाहिकज्वर दूर होता है । नीमके पत्ते,
वच, कूठ, हरड, सफेद सरसों और गुग्गुलु इन सबको
एकत्र पीसकर घीमें मिलाकर धूप देवे तो विषमज्वर
दूर होता है । अथवा विलावकी विष्ठाकी धूनी देनेसे
कम्पपुक्त विषमज्वर दूर होता है । सहदेई, वच, अपरा-
जिता और नाई इनकी शरीरमें धूप देनेसे अथवा
इनका उबटन करनेसे सबप्रकारके ज्वर शान्त होते हैं
॥ ५९७ ॥ ५९८ ॥ ५९९ ॥ ६०० ॥

मयूरचन्द्रकैर्धूपः सर्वज्वरग्रहापहः ६०१

भोरकी पूँछके चांदकी धूप देनेसे सर्वप्रकारके ज्वर
और ग्राहवाधा दूर होती है ॥ ६०१ ॥

पलंकषावचाकुष्ठैर्निम्बपत्रयवैर्घृतैः ।

पथ्यासिद्धार्थकैर्धूपः शस्तः सर्वज्वरा-
पहः ॥ ६०२ ॥

गूगल, वच, कूठ, नीमके पत्ते, जौ, घी, हरड
और सफेद सरसों इनकी धूप देनेसे सर्व प्रकारके
ज्वर दूर होते हैं ॥ ६०२ ॥

पुरध्यामवचासर्जनिम्बाकार्गुरुदा-
रुभिः । सर्वज्वरहरो धूपः श्रेष्ठोऽयमप-
राजितः ॥ ६०३ ॥

✓गूगल, रोहिपतृण, वच, शल, नीम, आकके पत्ते,
अगर और देवदारु इनकी धूप देनेसे सर्वप्रकारके
ज्वर दूर होते हैं इसको अपराजिता धूप कहते
हैं ॥ ६०३ ॥

महेश्वरधूप ।

रुद्रजटा गोशृंगं विडालविष्टोरगस्य
निर्मोकः । मदनफलभूतकेश्यौ वंश-
त्वष्टुनिर्माल्यम् ॥ ६०४ ॥ घृतयव-
मयूरचन्द्रच्छागलकरोमाणि सर्वपाः
सवचाः । हिंशुगवास्थिमरिचाः सम-
भागाश्छागमूत्रसंपिष्टाः ॥ ६०५ ॥
धूपनविधिना शमयन्त्येते सर्वाञ्ज्व-
रान्नियतम् । ग्रहडाकिनीपिशाचप्रेत-
विकारानयं धूपः ॥ ६०६ ॥

रुद्रजटा (ईशमूल), गायका सीग, विलावकी विष्ठा, सांपकी कैचली, मैनफल, भूतकेशी, बाँसकी छाल, शिवका निर्माल्य, घी, जौ, मोरकी चाँद, बकरेके रोम, सरसों, वच, हींग, गोरोचन और कालीमिरच इन सबको समान भाग लेकर बकरेके मूत्रमें पीसकर विधिपूर्वक धूप देनेसे सर्वप्रकारके ज्वर, एवं डाकिनी, पिशाच, प्रेतआदिकी बाधा दूर होती है इसको माहेश्वरधूप कहते हैं ॥ ६०४ ॥
॥ ६०५ ॥ ६०६ ॥

**ज्वरवेगरय कालञ्च चिन्तयञ्ज्वर्यते
तु यः । तस्यैष्टैरद्भुतैर्वापि विषयैर्नाश-
येत्स्मृतिम् ॥ ६०७ ॥**

ज्वरके बढनेके समय ज्वरको स्मरण करनेसे जिस मनुष्यका ज्वर चढ़ जाता है, उसको इष्टपदार्थों और अद्भुतवार्ताओंके द्वारा स्मृतिको नष्ट कर देवे ॥ ६०७ ॥

**सततं विषमं वापि क्षीणस्य सुचिरो-
त्थितम् । ज्वरं सम्भोजनैः पथ्यैर्ज्वरद्वेः
समुपाचरेत् ॥ ६०८ ॥**

क्षीणमनुष्यके बहुत दिनोंके उत्पन्न हुए सतत या विषमज्वरको ज्वरनाशक पथ्य भोजनोंसे जीते ६०८ ॥

**ज्वराः कषायैर्वमनैर्लङ्घनैर्लघुभोजनैः ।
रुक्षस्य ये न शाम्यन्ति सर्पिस्तेषां
भिषङ्मतम् ॥ ६०९ ॥**

रुक्षमनुष्यके जो ज्वर फपाय, वमन, लंघन और हलके पदार्थोंसे शांत नहीं हो तो उसको घृतपान करावे ॥ ६०९ ॥

**बलाशिमन्थत्रिफलाक्काथे दक्षा घृतं
पचेत् । तिल्वकावापमेतद्धि विषम-
ज्वरनाशनम् ॥ ६१० ॥**

खिरैटी, अरणी और त्रिफला इनका काथ बनाकर उसमें दही, घी और लोधका चूर्ण डालकर सेवन करे तो विषमज्वर दूर होता है ॥ ६१० ॥

✓चन्दनादिघृत ।

**चन्दनं चित्रकं सिंही वत्सकं मुस्तना-
गरे । कटुका त्रायमाणा च धात्र्युशारे**

**द्विशारिवे ॥ ६११ ॥ द्राक्षाऽर्द्धपलमात्रा-
णि सौम्यवारेषु संहरेत् । क्षीराढकस-
मायुक्तां सर्पिषोऽर्द्धतुलां पचेत् ॥ ६१२ ॥
चातुर्थिकं हरेत्पीतमुन्मादं विषम-
ज्वरम् । त्र्याहिकं श्वासकासौ च
सर्वापस्मारमेव च ॥ ६१३ ॥**

चन्दन, चीता, कटेरी, इन्द्रजौ, नागरमोथा, सोठ, कुटकी, त्रायमाण, आमले, खस, दोनो सारिवे, गौरीयासांऊ और दाख ये प्रत्येक दो दो तोले लेकर सौम्यवारके दिन काथ बनावे, फिर उसमें एक आढक गौका दूध और २०० तोले घी डालकर विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे । यह चन्दनाद्यघृत, चातुर्थिकज्वर, उन्माद, विषमज्वर, त्र्याहिकज्वर, श्वास, खाँसी और सबप्रकारके अपस्मार रोग दूर करता है ॥ ६११ ॥ ६१२ ॥ ६१३ ॥

✓कल्याणघृत ।

**विडंगमुस्तत्रिफलामञ्जिष्ठादाडिमो-
त्पलैः । श्यामैलवालुकैलाभिश्चन्दना-
मरदारुभिः ॥ ६१४ ॥ बर्हिष्ठकुष्ठरजनी-
पर्णिनीशारिवाद्र्यैः । हरेणुकात्रिवृह-
न्तीवचातालीशनागरैः ॥ ६१५ ॥ बला-
विशालबृहतीमालतीपृष्ठिपर्णिभिः ।
एतैश्च कार्षिकैः कल्कैर्घृतप्रस्थं विपाच-
येत् ॥ ६१६ ॥ चतुर्गुणेन पयसा द्विगु-
णेन जलेन च । एतत्कल्याणकं नाम-
सर्पिः पक्वं त्रिदोषनुत् । विषमज्वरश्वा-
सकासगुल्मोन्मादज्वरापहम् ॥ ६१७ ॥**

वायविडंग, नागरमोथा, त्रिफला, मजीठ, अनार, कमल, पीपल, एलुआ, इलायची, लाल चन्दन, देवदारु, सुगन्धवाला, कूठ, हलदी, शालपर्णी, पृश्निपर्णी, श्वेत सारिवा, कृष्ण सारिवा, रेणुका, निसोत, दंती, वच, तालीसपत्र, सोठ, खिरैटी, इन्द्रायण, बडीकटेरी, चमेली और पृष्ठिपर्णी ये प्रत्येक औषधि एक २ कर्ष लेकर जलके साथ पीसलेवे फिर उत्तम गौका घी २ सेर, गौका दूध ८ सेर और दूना जल लेवे, सबको यथाविधिसे मिलाकर घृतको पकावे, यह कल्याण-

घृत त्रिदोषनाशक है तथा विषमज्वर, ज्वास, खॉसी गुल्म, उन्माद और ज्वरनाशक है ॥ ६१४ ॥
॥ ६१५ ॥ ६१६ ॥ ६१७ ॥

महाकल्याणघृत ।

एतदेव हविः पक्वं जीवनीयोपसंस्कृतम् । द्विपञ्चमूलकाथेन शतावर्ग्या रसेन च ॥ ६१८ ॥ चतुर्गुणेन पयसा महाकल्याणमुच्यते । अपस्मारग्रहं शोषं क्लेशं काश्यमजीवितम् ॥ ६१९ ॥ घृतमेतन्निहन्त्याशु ये चापि विषमज्वराः । जीवनीयगणत्वेन काकोल्यादिगणग्रहः । महाकल्याणके कार्थ्यो घृते तु दशकार्षिकः ॥ ६२० ॥

कल्याणघृतकी समस्त औषधिये, जीवनीयगणकी समस्त औषधिये, दशमूलकी समस्त औषधिये और जीवनीयगणकी औषध दश २ कर्प लेनी, इन सबका काथशतावरकारस चौगुना दूध और उत्तम गौका घी पूर्वोक्त लेकर सबको यथाविधिसे पकावे । इसको महाकल्याणघृत कहते हैं । यह महाकल्याणघृत अपस्मार, शोष, क्लीवता, कृशता और विषमज्वर आदिको नष्ट करता है ॥ ६१८ ॥ ६१९ ॥ ६२० ॥

षट्पलघृत ।

शुण्ठी कणा चित्रकञ्च चव्यं ग्रथिकमेव च । कुर्व्यात्पञ्चपलान्भागानेकैकस्य तु कृद्वितान् ॥ ६२१ ॥ जलद्रोणे विपक्तव्यं यावत्पादावशेषितम् । एतैस्तु पलिकैः कल्कैः सैधवेन समन्वितैः ॥ ६२२ ॥ षट्पलं नाम विख्यातं विषमज्वरनाशनम् । श्वासकासाग्निदौर्बल्यप्रतिश्यायित्वमेव च । प्लीहोर्ध्ववातश्च यथुपाण्डुरोगांश्च नाशयेत् ॥ ६२३ ॥

सोठ, पीपल, चीता, चव्य, पीपलामूल ये प्रत्येक ४-४ तोले लेकर कूट लेवे, फिर एकद्रोण जलमें सबको पकावे जब चौथाभाग जलशेष रह जाय तब उतारलेवे पश्चात् इस काथमे सैधानोन एवं उक्त औष-

१ यदि ८० स प्रस्थ ले तो ५ तोलेका पल लेना । यदि ६८ का प्रस्थ ले तो ४ तोलेका पल लेना । ऊपर १ जगह पल में ४ तोला १ जगह पलसे ५ तोला लिया है, मोठी ६ नहीं ।

धियोका एक २ पल कल्क डालकर घृतको सिद्ध करै । यह षट्पलघृत विषमज्वर, ज्वास, खॉसी, अग्नि-की मंदता, प्रतिश्याय, प्लीहा, ऊर्ध्ववात, सूजन और पाण्डुरोगको नष्ट करता है ॥ ६२१ ॥ ६२२ ॥ ६२३ ॥

अमृतषट्पलघृत ।

नागरञ्चविकाक्षारः पिप्पलीमूलचित्रकम् । कृष्णा च पलिकान्भागान्घृतप्रस्थे विपाचयेत् ॥ ६२४ ॥ शृंगवेररसप्रस्थं मस्तुप्रस्थं तथैव च । ऐकाहिकं द्वयाहिकञ्च त्रयाहिकञ्च चतुर्थकम् ॥ ६२५ ॥ एतान्सर्वज्वरान्हन्ति स्थूलत्वं कुरुते भृशम् । दुर्नामश्वासकासञ्च बलवर्णाग्निवर्द्धनम् ॥ ६२६ ॥

सोठ, चव्य, जवाखार, पीपलामूल, चीना और पीपल ये प्रत्येक चार २ तोले लेकर काथ बनावे । फिर उत्तम गौका घी ६४ तोले, अदरखका रस ६४ तोले और दहीका तोड ६४ तोले लेवे, सबको यथाविधिसे मिलाकर विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे । यह अमृतषट्पलघृत ऐकाहिकज्वर, द्वयाहिकज्वर, त्रयाहिकज्वर, चातुर्थिकज्वर, बवासीर, श्वास और खॉसी इन सबको नष्ट करता है तथा स्थूलता, बल, वर्ण और जठराग्निको बढ़ाता है ॥ ६२४ ॥ ६२५ ॥ ६२६ ॥

सुवर्चिकानागरकुष्ठमूर्वालाक्षानिशा-लोहितयाष्टिकाभिः । नैलं ज्वरे षट्गुणतक्रसिद्धमभ्यञ्जनाच्छीताविदा-हनुत्स्यात् ॥ ६२७ ॥

सजी, सोठ, कूठ, मूर्वा, लाख, हल्दी और मजीठ इन सब औषधियोंके काथके साथ तिलका तेल और तेलसे छ गुना गौके दहीका सार सबको एकत्र मिलाकर यथाविधि तेलको सिद्ध करे । इस तेलको शरीर पर मर्दन करनेसे जीत और दाह दूर होती है ॥ ६२७ ॥

दध्नः ससारकस्यात्र तक्रं कट्टरामिष्यते ।

यहाँ दहीका सार जो तक्र उसको कट्टर कहते हैं ।

१ दहीमें जो नीला पानी निकलता है ।

शुक्लारनालैर्दधिमस्तुतक्रैः फलाम्बु-
भागेन समं हितैलम् । कृष्णादिकल्कै-
र्मृदुवद्विसिद्धमभ्यञ्जनं वातकफ-
ज्वराणाम् ॥ ६२८ ॥ एकाहिकद्वित्रि-
चतुर्थकानां मासार्द्धमासद्वयमासि-
कानाम् । निवारणं तद्विषमज्वराणां
तैलन्तु षट्कट्टरकं महत्स्यात् ॥ ६२९ ॥

शुक्त(सिरका), कांजी, दहाका ताड, तक्र, विजाँ-
रेनीवृका रस और तेल ये प्रत्येक १-१ सेर लेवे। सबको
एकत्र मिलाकर उसमें पिंपल्यादिगणकी औषधियोंका
कल्क डाल कर मंद २ अग्निसे तेलको सिद्ध करे।
इस महाषट्कट्टरतैलको शरीर पर मालिश करनेसे,
वातकफज्वर, एकाहिकज्वर, द्वयाहिकज्वर, त्रयाहि-
कज्वर, चातुर्थिकज्वर, पाक्षिकज्वर, मासिकज्वर,
द्वैमासिकज्वर और सर्वप्रकारके विषमज्वर दूर होते
हैं ॥ ६२८ ॥ ६२९ ॥

कृष्णा चित्रकषट्ग्रन्था वासकं विष-
कायनम् । ग्रन्थिकैले चातिविषा
रेणुकश्च कटुत्रयम् ॥ ६३० ॥ यवानी
गोस्तनी व्याघ्री भूनिम्बं बिल्वचन्द-
नम् । भार्ङ्गी श्यामा शिवा धात्री
स्थिरा मूर्वा सजीरका ॥ ६३१ ॥
सर्षपं हिङ्गुकटुकी विडङ्गश्च समां-
शकम् । एष कृष्णादिको नाम्ना गणो
ज्वरविनाशनः ॥ ६३२ ॥

अब उस कृष्णादि अर्थात् पिंपल्यादिगणकी औष-
धियोंको कहते हैं-पीपल, चीता, वच, अडूसा, अतीस,
नागरमोथा, पीपलामूल, इलायची, दूसर प्रकारका
अतीस (बडीगांठवाली), रेणुका, त्रिकुटा, अजवायन,
दास्य, कटेरी, चिरायता, वेलगिरी, चन्दन, भारंगी,
अनंतमूल, हरड, आमले, शालपर्णी, मूर्वा, जीरा, सरसो
हींग, कुटकी और वायविडंग ये सब औषधियाँ सम-
भाग लेवे। इन सब औषधियोंको कृष्णादिगण या
पिंपल्यादि गण कहते हैं (यह ज्वरनाशक है) ॥ ६३० ॥
॥ ६३१ ॥ ६३२ ॥

लाक्षारसाढके प्रस्थं तैलस्य विपचे-
द्विषक् । मस्त्वाढकं समादाय पिष्ट्वा
चात्र विनिःक्षिपेत् ॥ ६३३ ॥ शतपुष्पा
हरिद्रा च मूर्वा कुष्ठं हरेणुकम् ।
कटुकं मधुकं रास्ना अश्वगन्धा च दारु
च ॥ ६३४ ॥ समुस्तं चन्दनं चैव पृथ-
गक्षसमानकैः । द्रव्यैरेतैस्तु
तत्सिद्धमभ्यङ्गं मारुतापहम् ॥ ६३५ ॥
विषमाख्याज्वरान्सर्वानाश्वेव प्रशमं
नयेत् । कासं श्वासं प्रतिश्यायं
कण्डूं दौर्गन्ध्यगौरवम् ॥ ६३६ ॥
त्रिकपृष्ठग्रहं शूलं गात्राणां स्फुटनं
तथा । पाप्मालक्ष्मीप्रशमनं सर्वग्रह-
निवारणम् ॥ ६३७ ॥ आश्विभ्यां निर्मि-
तं सम्यक्तैलं लाक्षादिकं त्विदम् ॥

लाखका रस २५६ तोले, दहीका पानी २५६ तोले
इनमें चौंसठ तोले तिलके तेलको मिलाकर पकावे
फिर उसमें सौफ, हल्दी, मूर्वा, कूट, रेणुका, कुटकी,
मुलैठी, रास्ना, असगंध, देवदारु, नागरमोथा और
चन्दन ये प्रत्येक औषधि १-१ कर्ष लेकर सबका
कल्क बनाकर एकत्र मिलाकर तेलको सिद्ध करे।
यह लाक्षादितैल शरीरपर मर्दन करनेसे वातरोग,
सर्वप्रकारके विषमज्वर, श्वास, खोंसी, प्रतिश्याय,
कण्डू, दुर्गन्ध, गुरुता, त्रिकशूल, पृष्ठशूल, शरीरका
फटना, पाप, अलक्ष्मी और सर्वप्रकारकी ग्रहवाधा
दूर होती है। यह महालाक्षादितैल श्रीअश्विनीकुमारोने
निर्माण किया है ॥ ६३३ ॥ ६३४ ॥ ६३५ ॥ ६३६ ॥
॥ ६३७ ॥

सोमं सानुचरं देवं समानुगणमी-
श्वरम् । पूजयन्प्रयतः शीघ्रं मुच्यते
विषमज्वरात् ॥ ६३८ ॥

पार्वती, अनुचरगण और मातृगणसहित शिवजीकी
भाक्ति पूर्वक पूजा करनेसे विषमज्वर शीघ्र ही नष्ट
होता है अथवा 'सोमसानुचरम्' इत्यादि मंत्रके
पढ़नेसे विषमज्वर नष्ट होता है ॥ ६३८ ॥

दाहः स्वेदो भ्रमस्तृष्णा कपो विड्भि-
दसंज्ञिता । कूजनं चातिवैगन्ध्यमा-

कृतिर्ज्वरमोक्षणे ॥ ६३९ ॥ त्रिदोषजे
ज्वरे ह्येतदन्तर्वेगे च धातुगे । लक्षणं
मोक्षकाले स्यादन्यस्मिन्स्वेद-
दर्शनम् ॥ ६४० ॥

दाह, स्वेद, भ्रम, तृषा, कंप, मलभेद, संज्ञाका
नाश, कूजना और अत्यन्त गन्धका आना ये सब
लक्षण ज्वरके मोक्ष होनेके है, यह लक्षण त्रिदोषज-
ज्वर, अन्तर्वेगज्वर और धातुगतज्वरके मोक्षके सम-
यमे होते है । किन्तु अन्यान्यज्वरके मोक्षके समय
केवल पसीना ही आता है ॥ ६३९ ॥ ६४० ॥

नित्यं मन्दज्वरो रूक्षः शूनः कृच्छ्रेण
सिद्ध्यति । स्तब्धाङ्गः श्लेष्मभूयिष्ठो
नरो वातबलासकी ॥ ६४१ ॥

✓ सदैव मंदज्वर बना रहे, शरीरमे रूखापन, सूजन,
शरीर जकडासा रहे, कफकी अधिकता हो ये वातव-
लासकज्वरके लक्षण जानने । यह वातबलासकज्वर
कष्टसाध्य है ॥ ६४१ ॥

प्रलिपत्रिव गात्राणि घर्मेण गौरवेण
च । मन्दज्वरविलेपी च स शीतः
स्यात्प्रलेपकः ॥ ६४२ ॥

✓ जिसमे रोगी पसीनोंसे व्याप्त रहे, शरीरमे भारीपन
हो, ज्वरका वेग मंद हो तो प्रलेपि ज्वर होता है और
इसीमे सर्दी लगे तो उसको प्रलेपकज्वर जानना
चाहिये ॥ ६४२ ॥

कफवातज्वरप्रोक्तां क्रियां वातबला-
सके । प्रयुञ्जीत भिषक् श्लेष्मज्व-
रघ्नितु प्रलेपके ॥ ६४३ ॥ विदग्धेऽत्र-
रसे देहे श्लेष्मपित्तं व्यवस्थिते । तेनार्द्धे
शीतलं देहमर्द्धमुष्णं प्रजायते ॥ ६४४ ॥

✓ वातबलासकज्वरमे कफवातज्वरोक्तक्रिया और
प्रलेपकज्वरमे कफज्वरत्रचिकित्सा करनी चाहिये ।
शरीरमे अन्नरसके दूषित होनेसे कफ पित्त कुपित
होकर आधी देहको शीतल और आधी देहको गरम
करते है ॥ ६४३ ॥ ६४४ ॥

काये दुष्टं यदा पित्तं श्लेष्मा चान्ते
व्यवस्थितः । तेनोष्णत्वं शरीरस्य
शीतत्वं करपादयोः ॥ ६४५ ॥

✓ जब शरीरके भीतर पित्त कुपित होता है और कफ
हाथ पैर आदिमें दुष्ट होकर स्थित होता है उस
समय सब शरीर गरम हो जाता है और हाथ पाँव
शीतल हो जाते हैं ॥ ६४५ ॥

काये श्लेष्मा यदा दुष्टः पित्तं चान्ते
व्यवस्थितम् । शीतत्वं तेन गात्राणा-
मुष्णत्वं हस्तपादयोः ॥ ६४६ ॥

✓ जब शरीरके भीतर कफ कुपित होता है और पित्त
हाथ पाँव आदिमें दुष्ट होकर स्थित होता है तब सब
शरीर शीतल हो जाता है और हाथ पाँव गरम हो
जाते है ॥ ६४६ ॥

त्वक्स्थौ श्लेष्मानिलौ शीतमादौ
जनयतो ज्वरम् । तयोः प्रशान्तयोः
पित्तमन्ते दाहं करोति च ॥ ६४७ ॥

✓ प्रथम कफ और वायु त्वचामें स्थित होकर शीतज्व-
रको उत्पन्न करते है, जब शांत हो जाते है तब पित्त
दाहका उत्पन्न करता है ॥ ६४७ ॥

करोत्यादौ तथा पित्तं त्वक्स्थं दाह-
मतीव च । तस्मिन्प्रशान्ते त्वितरौ
कुरुतः शीतमन्ततः ॥ ६४८ ॥

✓ प्रथम पित्त त्वचामें स्थित होकर दाहयुक्त ज्वरको
उत्पन्न करता है, जब वह शांत हो जाता है तब
कफ और वायु अन्तमे शीतको उत्पन्न करते
है ॥ ६४८ ॥

द्वावेतौ दाहशीतादिज्वरौ संसर्गजौ
मतौ । दाहपूर्वस्तयोः कष्टः कृच्छ्रसा-
ध्यतमश्च सः ॥ ६४९ ॥

✓ उक्त दोनो दाहपूर्वक और शीतपूर्वकज्वर त्रिदोष-
जनित है, इनमे दाहपूर्वक कष्टसाध्य और शीतपूर्वक
अत्यन्त कष्टसाध्य है ॥ ६४९ ॥

शुण्ठीवराब्दोशीरैश्च पिबेत्तोर्यं सुसा-
धितम् । दाहशीतज्वरहरं पाचनं
भिषजां मतम् ॥ ६५० ॥

✓ सोठ, त्रिफला, नागरमोथा और खस इनका काथ
बनाकर पान करनेसे दाहपूर्वकज्वर और शीतपूर्वक-
ज्वर दूर होता है । यह काथ उत्तम पाचन है ऐसा
वेद्योका मत है ॥ ६५० ॥

शीताभिभूते पुरुषे कुर्याच्छीतहरीं
क्रियाम् । दाहाभिभूते तु विधिं
कुर्याद्दाहविनाशनम् ॥ ६५१ ॥

शीतज्वरके पीडित मनुष्यकी शीतनाशक चिकित्सा
करनी चाहिये और दाहज्वरपीडित मनुष्यकी दाहना-
शक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ६५१ ॥

मधुफाणितमिश्रेण निम्बपत्राम्भसा-
पि वा । दाहज्वरार्त्तं मतिमान्वाम-
येत्क्षिप्रमेव च ॥ ६५२ ॥

नीमके पत्तोंके काथमे शहद और फाणित (राव)
मिलाकर दाहज्वरवाले रोगीको शीघ्र वमन
करावे ॥ ६५२ ॥

उत्तानसुप्तस्य गभीरताम्रकांस्यादि-
पात्रं प्रणिधाय नाभौ । तत्राम्बुधारा
बहुलं पतन्ती निहन्ति दाहं त्वरितं
सुशीता ॥ ६५३ ॥

दाहवाले रोगीको चित्त सुलाकर, उसकी नाभिके
ऊपर काँसेका अथवा ताँबेका पात्र रखकर,
उसमें दूरसे शीतल जलकी धारा छोड़े इससे तत्काल
दाह दूर होती है ॥ ६५३ ॥

वाप्यः कमलहासिन्यो जलयन्त्रगृहाः
शुभाः । नार्यश्चन्दनदिग्धाङ्गयो
दाहदैन्यहरा मताः ॥ ६५४ ॥

जिन वावाडियोंमे कमल और कुमुद खिल रहे हैं
उनमें स्नान करनेसे तथा जिन घरोंमे शीतलजलके
फुहारे लग रहे हैं उनमें रहनेसे और जिन स्त्रियोंके
अंग चन्दनादिसे चर्चित हैं उनको आलिंगन करनेसे
उग्र दाह और दैन्यता दूर होती है ॥ ६५४ ॥

शतधौतघृताभ्यक्तं दिह्याद्वा यवस-
न्तुभिः । कोलामलकसंयुक्तैः शूक-
धान्याम्लसंयुतैः ॥ ६५५ ॥ अम्ल-
पिष्टः सुशीतैश्च फेनिलापल्लवैस्तथा ।
अम्लपिष्टैः सुशीतैश्च पलाशतरुजै-
र्दिहेत् ॥ ६५६ ॥ बदरीपल्लवोत्थेन
फेनेनारिष्टकेन वा । लिप्तेऽङ्गे दाह-
तृणमूर्च्छा सर्वथैव प्रशाम्यति ॥ ६५७ ॥

सौवार धुले घीकी मालिग करनेसे, जौरे
सत्तुओंको जलमे सानकर लेप करनेसे अथवा बेर
और आमलोको जौकी कांजीमे पीसकर लेप करनेसे,
राठेके पत्तोंको कांजीमे पीसकर लेप करनेसे या टाकके
पत्तोंको कांजीमे पीसकर लेप करनेसे, किवा बेरीके
पत्तोंके झागोंका लेप करनेसे अथवा नीमके पत्तोंके
झागोंको शरीरपर लेप करनेसे दाह, तृषा और मूर्च्छा
दूर होती है ॥ ६५५ ॥ ६५६ ॥ ६५७ ॥

दाडिमं बदरं लोधं कपित्थं बीजपू-
रकम् । पिष्ट्वा मूर्ध्नि प्रलेपोऽयं पिपा-
सादाहनाशनः ॥ ६५८ ॥

अनारकी छाल, बेरीकी छाल, लोध, कैथ और
विजौरा नीबू इनको एकत्र जलमे पीसकर घीमे
मिलाकर शिरपर लेप करनेसे तृषा और दाह दूर
होती है ॥ ६५८ ॥

कालीयबदरानन्ता यष्टीचन्दनका-
ञ्जिकैः । सवृत्तैः स्याच्छिरोलेपस्तृ-
ष्णादाहविनाशनः ॥ ६५९ ॥

✓कलम्बक, बेरीकी छाल, अनन्तमूल, मुलैठी
और चन्दन, इनको कांजीमे पीसकर घीमे मिला
कर शिरपर लेप करनेसे तृषा और दाह दूर
होती है ॥ ६५९ ॥

स्वरसं मातुलुङ्गस्य संयुक्तं मधुस-
र्पिषा । तालुशोषे प्रदेहोऽयं मूर्ध्नि
दाहे ससैन्धवः ॥ ६६० ॥

विजौरे नीबूके स्वरसको शहदमे और घीमे
मिलाकर सेवन करनेसे तालुशोष दूर होता है,
तथा मस्तकमे दाह हो तो उक्तयोगको सैधेनानके
साथ मिलाकर लेप करे ॥ ६६० ॥

करवीरस्य पत्राणि चन्दनं सारिवा
तिलाः । तृष्णाघ्नः शिरसाऽऽलेप
आरनालेन पेषितः ॥ ६६१ ॥

✓कनेरके पत्ते, चन्दन, अनन्तमूल और तिल
इनको कांजीमे पीसकर शिरपर लेप करनेसे तृषा
दूर होती है ॥ ६६१ ॥

वारि शीतं मधुयुतमाकण्ठाद्वा पिपा-
सितम् । वामयेत्पाययित्वा तु तेन
तृष्णा प्रशाम्यति ॥ ६६२ ॥

तृपासे व्याकुल मनुष्यको शीतिल जलमे शहद
मिलाकर कंठपर्यन्त पिलावे फिर वमन करा देवे
इसप्रकार चार २ कंठपर्यन्त पिलाकर वमन करानेसे
तृपा जांत हो जाती है ॥ ६६२ ॥

पद्मकतैलम्

पद्मकोत्पलकल्हारमृणालबिसर्पौष्क-
रैः । कुमुदोशीरमञ्जिष्ठापद्मगैरिक-
कट्फलैः ॥ ६६३ ॥ शारिवाद्रयलो-
धाब्दक्षीरीखर्जूरमुस्तकैः । धात्रीशता-
वरीयुक्तः काथे कल्के प्रयोजितैः
॥ ६६४ ॥ सलाक्षाम्भः पयः शुक्तस्व-
च्छकाञ्जिकमस्तुभिः । पक्वं तैलमिदं
त्वच्यं तृष्णादाहज्वरापहम् ॥ ६६५ ॥
पञ्चप्रभृति यत्र स्युर्द्रव्याणि स्नेहस-
म्बिधौ । तत्र स्नेहसमान्याहुरर्वा-
कस्याञ्च चतुर्गुणम् ॥ ६६६ ॥

पद्माख, कमल, लाल कुमुद, कमलकी नाल,
कमलकन्द (भसीडा), पोहकरमूल, कमोदनी, खस,
मजीठ, नीलकमल, गेरु, कायफल, रक्तसारिवा,
कृष्णमारिवा, लोध, मोथा, दुद्धी, खजूर, नागरमोथा,
आमले और शतावर, इन सब औषधियोंका कल्क
और काथ, लाखका रस, दूध, सिरका, दहीका पानी
और तेलके सब समान भाग ले सबको यथाविधिसे
मिलाकर विधिपूर्वक तैलको सिद्ध करे. यह पद्मक
तैल त्वचाको हितकारी तथा तृपा और दाहज्वरना-
शक है ॥ ६६३ ॥ ६६४ ॥ ६६५ ॥ ६६६ ॥

शीतस्तम्य तु वातघ्नं सुखोष्णाम्भोऽ-
वगाहनम् । पट्टकोशेयवासोभिः पत्रो-
र्णादिभिर्गावृतः । निवाने मन्दिरे
स्थाप्य कृष्णागुरुसुधूपिते ॥ ६६७ ॥

शीतपूर्वक ज्वरवाले रोगीकी वातनाशक चिकित्सा
करे और सुखोष्ण जलमें शिरसे डुबकी लगाकर

स्नान करावे एवं रेगमी, पट्ट, पत्र और ऊनी बखोसे
उसको ढक कर निर्वातस्थानमे बैठाकर काली अग-
रकी धूप देवे ॥ ६६७ ॥

कायस्थानाकुलीतिकावयस्थापुरचो-
रकैः । सहदेवीवचाकुष्ठैः शीतघ्नै-
र्धूपलेपनैः ॥ ६६८ ॥ एतैरेवौषधैः पिष्टै-
र्लवणक्षारसंयुतैः । साम्लैर्विपाचितं
तैलमभ्यङ्गाच्छीतनाशनम् ॥ ६६९ ॥

हरड, नकुलकंद, कुटकी, आमला, गिलोय, रूगल
चौरक (सुगन्धित द्रव्य) सहदेई, वच और कूठादि
शीतनाशक औषधियोंकी धूप देवे । अथवा उक्त
औषधियोंको नमक और जवाखारके साथ पीसकर
कांजीमे मिलाकर तैलको पकावे इस तैलको मलनेसे
शीतपूर्वक ज्वर दूर होता है ॥ ६६८ ॥ ६६९ ॥

सुखोष्णैर्मस्तुगोमूत्रशुक्तैः सेकोऽति-
शीतहा । सुरसार्जकशिग्रूणां प्रलेपो
दलसम्भवः ॥ ६७० ॥

✓ तुलसी, वनतुलसी और सैजिनेके पत्तोंको दहीके
तोड, गोमूत्र अथवा शुक्त पीसकर सुखोष्ण करके
लेप करनेसे शीतज्वर नष्ट होता है ॥ ६७० ॥

रसादिधातुगतज्वरोंके लक्षण ।

गुरुता हृदयोत्क्लेशः सदनं छर्द्यरोच-
कौ । रसस्थे तु ज्वरे लिङ्गं दैन्यश्वा-
स्योपजायते ॥ ६७१ ॥

✓ शरीरमे भारीपन, हृदयमें उबकाई, वमन, भोजनमें
अरुचि और दीनता ये सब लक्षण रसगत ज्वरके
जानने ॥ ६७१ ॥

रक्तनिष्ठीवने दाहो मोहश्छर्दनविभ्र-
मौ । प्रलापः पिडिकासृष्णा रक्तप्राप्ते
ज्वरे तृणाम् ॥ ६७२ ॥

✓ रुधिरका थूकना, दाह, मोह, वमन, भ्रम, प्रलाप,
फुन्सियोंका निकलना और तृपा ये लक्षण रुधिरगत
ज्वरके होतेहैं ॥ ६७२ ॥

पिण्डिकोद्वेष्टनं तृष्णा सृष्टमूत्रपुरी-
षता । उष्मान्तर्दाहविक्षेपौ श्लानिः
स्यान्मांसगे ज्वरे ॥ ६७३ ॥

✓ पिण्डलियोंका ढँठना, जकडना वा पिण्डलियोंमे गोंठोंका पडजाना, तृषा, मूत्र और मलकी अधिकता, गरमी, अन्तर्दाह और शरीरको इधर उधर पटकना तथा शरीरमें ग्लानि ये सांसगत ज्वरके लक्षण जानने चाहिये ॥ ६७३ ॥

भृशं स्वेदस्तृषा मूर्च्छा प्रलापश्छर्दि-
रेव च। दौर्गन्धारोचकौ ग्लानिर्मेदस्थे
चासहिष्णुता ॥ ६७४ ॥

✓ पसीनेका अधिक आना, तृषा, मूर्च्छा, प्रलाप, वमन, दुर्गन्धि, अरुचि, ग्लानि और असहिष्णुता ये मेहगतज्वरके लक्षण जानने ॥ ६७४ ॥

भेदोऽस्थनां कूजनं श्वासो विरेकश्छर्दि-
रेव च । विक्षेपणञ्च गात्राणामेत-
दस्थिगते ज्वरे ॥ ६७५ ॥

✓ हड्डियोंमे भेदनेकेसी पीडा, हड्डियोंका बोलना, श्वास, विरेचन, वमन और शरीरके अंगोंको इधर उधर पटकना ये अस्थिगत ज्वरके लक्षण हैं ॥ ६७५ ॥

तमःप्रवेशनं हिका कासः शैत्यं वमि-
स्तथा । अन्तर्दाहो महाश्वासो
मर्मभेदश्च मज्जगे ॥ ६७६ ॥

✓ अंधकार दीखना, हिचकी आना, खॉसी, जीत लगना, वमन, भीतरी भागमें दाह, महाश्वास और मर्म स्थानोंमें भेदनेसरीखी पीडाका होना ये मज्जागत ज्वरके लक्षण जानने ॥ ६७६ ॥

मरणं प्राप्नुयात्तत्र शुक्रस्थानगते ज्वरे।
शोफसस्तब्धता मोक्षः शुक्रस्य तु
विशेषतः ॥ ६७७ ॥

✓ जब शुक्रके स्थानमे ज्वर पहुँचता है तब प्रायः रोगी मर जाता है, तथा उसका लिंग जकड़ जाय और विशेषकर वीर्यका क्षरण होता है ॥ ६७७ ॥

रसरक्ताश्रितः साध्यो मांसमेदो-
गतश्च यः । अस्थिमज्जागतः कृच्छ्रः
शुक्रस्थोऽपि न जीवति ॥ ६७८ ॥

रस, रक्त, मांस और मेदगत ज्वर साध्य है, अस्थि और मज्जागत कष्टसाध्य है, एवं शुक्रगतज्वर असाध्य है ॥ ६७८ ॥

सप्तधातुगतज्वरकी चिकित्सा ।

रसस्थे तु ज्वरे तस्मिन्कुर्याद्ब्रमन-
लङ्घने । सेकः संशमनो लेपो रक्तमोक्ष-
मसृगते ॥ ६७९ ॥

✓ रसगतज्वरमे वमन और लंघन कराने चाहिये, रक्तगतज्वरमे जलसे सींचना, संशमन औषधि, लेप और रक्तमोक्षण कराना चाहिये ॥ ६७९ ॥

तीक्ष्णे विरेकश्च तथा कुर्यान्मांस-
गते ज्वरे । मेदःस्थे मेदसो नाश-
मस्थिस्थे वातनाशनम् ॥ ६८० ॥ वस्ति-
कर्म प्रयोक्तव्यमभ्यङ्गोद्वर्तनं तथा ।
मज्जाशुक्रे क्रिया नोक्ता मरणं तत्र
भाषितम् ॥ ६८१ ॥

✓ मांसगतज्वरमे तीक्ष्ण विरेचन करानी चाहिये, मेद-
गतज्वरमें मेदनाशक चिकित्सा करनी चाहिये ।
अस्थिगतज्वरमें वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिये।
तथा वस्तिकर्म, अभ्यंग (तैलादिमर्दन) और उद्वर्तन ये
सब कराने चाहिये। मज्जा और शुक्रगतज्वरकी चिकि-
त्सा नहीं कही केवल मरण ही कहा है ॥ ६८० ॥ ६८१ ॥

कटुका रोहिणी मुस्ता पिप्पलीमूलमेव
च । हरीतकी च तत्तौयमामाशयगते
ज्वरे ॥ ६८२ ॥

✓ कुटकी, नागरमोथा, पीपलामूल और हरड इनका
काथ आमाशयगत ज्वरोंमे देवे ॥ ६८२ ॥

वर्षाशरद्वसन्तेषु वाताद्यैः प्राकृतः
क्रमात् । विकृतोऽन्यः स दुःसाध्यः
प्राकृतश्चानिलोद्भवः ॥ ६८३ ॥

वर्षाऋतुमे वातज्वर, शरदऋतुमे पित्तज्वर और
वसन्तऋतुमे कफज्वर उत्पन्न हो तो प्राकृत जानना
और इनसे विपरीत उत्पन्न हो तो विकृत जानना ।
वैकृतज्वर दुःसाध्य है और प्राकृत वातज्वर भी दुःसाध्य
है ॥ ६८३ ॥

वर्षासु मा उतो दुष्टः पित्तश्लेष्मान्वितो
ज्वरम् । कुर्यात्पित्तञ्च शरदि तस्य
चालुबलः कफः ॥ ६८४ ॥ तत्प्रकृत्या
विसर्गाच्च तत्र नानशनाद्भयम् । कफो
वसन्ते तमपि वातपित्तं भवेद्बलु ॥ ६८५ ॥

वर्षाऋतुमें वायु दुष्ट होकर पित्तकफको साथ लेकर
ज्वरको उत्पन्न करता है, शरत्कालमें पित्त दुष्ट होकर
कफकी सहायता पाकर ज्वरको उत्पन्न करता है, उस
ज्वरमें दोषोंके स्वभावसे और विसर्पकालके होनेसे
लंघन करानेमें कुछ भय नहीं है, ऐसे ही वसन्तऋतुमें
कफ दुष्ट होकर वातपित्तकी सहायता पाकर ज्वरको
उत्पन्न करता है ॥ ६८४ ॥ ६८५ ॥

काले अथास्वं सर्वेषां प्रवृत्तिर्वृद्धिरेव
च । निदानोक्तानुपशयो विपरीतोप-
शायिता ॥ ६८६ ॥

जिस प्रकार काल दोषोंकी प्रवृत्ति और वृद्धिका
हेतु है उसी प्रकार उपशय और अनुपशय भी जानने
जैसे कि दोषोंको बढ़ानेवाले आहार विहारादिक जो
आचार हैं उनको अनुपशय जानना और दोषोंको
नष्ट करनेवाले आहार विहारादि जो आचार हैं
उनको उपशय जानना ॥ ६८६ ॥

अन्तर्दाहोऽधिका तृष्णा प्रलापः
ध्वसनं भ्रमः । सन्ध्यास्थिशूलमस्वेदो
दोषवर्षो विनिग्रहः ॥ ६८७ ॥ अन्त-
र्वेगस्य लिङ्गानि ज्वरस्यैतानि लक्ष-
येत् ॥ ६८८ ॥

शरीरके भीतर दाह हो, अत्यन्त ग्यास, वकवाद,
त्रास, भ्रम, सन्धि और हड्डियोंमें शूलकी पीडा,
पसीनेका न आना, वायु और मलका अच्छे प्रकारसे
न उतरना ये अन्तर्वेग ज्वरके लक्षण हैं ॥ ६८७ ॥
॥ ६८८ ॥

सन्तापो ह्यधिको बाह्यस्तृष्णादिनाश्च
मार्दवम् । बहिर्वेगस्य लिङ्गानि सुख-
साध्यत्वमेव च ॥ ६८९ ॥

शरीरके बाहर अत्यन्त सन्ताप हो और तृषादिक
कम हो ये बहिर्वेग ज्वरके लक्षण जानने यह सुख-
साध्य है ॥ ६८९ ॥

बलवत्स्वल्पदोषेषु ज्वरः साध्योऽल्प-
द्रवः ॥ ६९० ॥

बलवान् रोगीक अल्पदोष और उपद्रवर्दिन ज्वर-
हो तो साध्य है ॥ ६९० ॥

ज्वरे तुल्यर्तुदृष्यत्वं प्रमेहे तुल्यदृष्य-
ता । रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य
लक्षणम् ॥ ६९१ ॥

ज्वरमें ऋतुके अनुसार दृष्यता आर प्रमेहमें दोषोंके
समान दृष्यता और रक्तगुल्ममें पुराणापन ये
सुखसाध्य लक्षण हैं ॥ ६९१ ॥

जीर्णज्वरके लक्षण ।

न शाम्यति ज्वरो यस्य पक्षादूर्ध्वं
शरीरिणाम् । मन्दवेगानुचारी च स
ज्ञेयो जीर्णतां गतः ॥ ६९२ ॥

जो ज्वर पन्द्रह दिनके पश्चात् भी शान्त न हो और
मन्दवेगसे स्थिर रहें वह जीर्णताको प्राप्त होता है
अर्थात् पन्द्रह दिनके पीछे जीर्णज्वर हो जाता है ॥ ६९२ ॥

आसप्तरात्रात्तरुणं ज्वरमाहुर्मनी-
षिणः ॥ मध्यं चतुर्दशाहन्तु पुराणमत
उत्तरम् ॥ ६९३ ॥

ज्वर सातदिनतक तरुण होता है पश्चात् चौदह
दिनतक मध्यम होता है और इसके उपरान्त पुराना
हो जाता है ॥ ६९३ ॥

पुराणेऽपि ज्वरे दोषाः यद्यपथ्यैः
पुनस्तथा । लङ्घयेत्तत्र तं पश्चाद्यथोक्तां
कारयेत् क्रियाम् ॥ ६९४ ॥

पुराने ज्वरमें यदि कुपथ्य सेवन करनेसे वातादि
दोष फिर बढ़जावे तो प्रथम लंघन कराकर पश्चात्
ज्वरोक्त चिकित्सा करे ॥ ६९४ ॥

निदिग्धिकानागरिकामृतानां तोयं
पिवेन्मिश्रितपिप्पलीकम् । जीर्णज्व-

क्रिसीका ऐसा भी मत है कि तीन सप्ताहके पीछे ज्वर
जीर्ण हो जाता है ।

रारोचककासशूलश्वासाग्निमान्द्या-
दितपीनसे तु ॥ ६९५ ॥ हन्त्यूर्ध्व-
जान्गदान्प्रायः साथं तेनोपयुज्यते ॥
पिप्पलीचूर्णसंयुक्तः काथश्छिन्नोद्भवो-
द्भवः । जीर्णज्वरकफध्वंसी पञ्चमूल-
कृतोऽथवा ॥ ६९६ ॥

कटेरी, सांठ और गिलोय इनके काथको पीपलका
चूर्ण मिलाकर पान करे तो जीर्णज्वर, अरुचि, खांसी,
शूल, श्वास, मंदाग्नि, अदित और पानस रोग नष्ट होते
हैं। यदि ऊर्ध्वगत रोगोंको नष्ट करनेके लिये सेवन
करे तो इसको संध्याके समय पीना चाहिये ॥ ६९५ ॥
गिलोयके काथमे पीपलका चूर्ण डालकर पान कर-
नेसे जीर्णज्वर और कफ नष्ट होता है ॥ ६९६ ॥

पिप्पलीमधुसंमिश्रं गुडूचीस्वरसं-
पिबेत् ॥ जीर्णज्वरकफप्लीहकासारोच-
कनाशनम् ॥ ६९७ ॥

गिलोयके स्वरसमे पीपलका चूर्ण और शहत डाल
कर पान करे तो जीर्णज्वर, कफ, प्लीहा, खांसी और
अरुचि नष्ट होती है ॥ ६९७ ॥

जीर्णज्वरेऽग्निमान्द्ये च शस्यते गुड-
पिप्पली । कासाजीर्णारुचिश्वासह-
त्पांडुकमिरोगलुत ॥ ६९८ ॥

जीर्णज्वर और मंदाग्निमे गुडके साथ पीपलका
चूर्ण सेवन करना अत्यन्त श्रेष्ठ है । यह खांसी,
अजीर्ण, अरुचि, श्वास, पाण्डुरोग और कृमिरोग-
नाशक है ॥ ६९८ ॥

अमृतायाः कषायं तु शृतं चैव सुशी-
तलम् । मधुपादयुतं पीतं जीर्णज्वर-
हरं परम् ॥ ६९९ ॥

गिलोयके काथको शीतल करके उसमे चौथा
भाग गहड़ मिलाकर पान करनेसे जीर्णज्वर नष्ट
होता है ॥ ६९९ ॥

अनन्तं बालकं मुस्तं नागरं कटुरोहि-
णीम् । सुखाम्बुना प्रागुदयात्पिबेदक्ष-
समं रवेः । एष सर्वज्वरं हन्ति दीपय-
त्याशु चानलम् ॥ ७०० ॥

अनंतमूल, सुगन्धवाला, नागरमोथा, सांठ और
कुटकी इनका काथ बनाकर सूर्योदयसे पहले मन्दोष्ण
पान करे। यह सब प्रकारके ज्वरोंको नष्ट करता तथा
अधिको दीपन करता है ॥ ७०० ॥

द्राक्षादिकाथ ।

द्राक्षामृता शटी शृङ्गी मुस्तकं रक्त-
चन्दनम् । नागरं कटुकं पाठा भूनिम्बं-
सदुरालभम् ॥ ७०१ ॥ उशीरं
धान्यकं पद्मं बालकं कण्टकारिका ।
पुष्करं पिचुमन्दश्च दशाष्टाङ्गमिति
स्मृतम् ॥ ७०२ ॥ जीर्णज्वरारुचिश्वा-
सकासश्वयथुनाशनम् ॥ ७०३ ॥

द्राख, गिलोय, कचूर, काकडाशिगी, नागरमोथा,
लालचन्दन, सांठ, कुटकी, पाठ, चिरायता, धमासा,
खस, धनियाँ, पद्माख, सुगन्धवाला, कटेरी, पोहकर-
मूल और नीमकी छाल इनका क्वाथ बनाकर पीनेसे
जीर्णज्वर, अरुचि, श्वास, खांसी और सूजन दूर
होती है ॥ ७०१ ॥ ७०२ ॥ ७०३ ॥

शिरोविरेचन ।

शिरोगौरदशूलघ्नमिन्द्रियप्रतिबोध ॥
नम् जीर्णज्वरे रुचिकरं दद्याच्छीर्ष-
विरेचनम् ॥ ७०४ ॥ मधुना वाथ तैलेन
ज्वरघ्नेन प्रयोजयेत् ॥ ७०५ ॥

✓ जीर्णज्वरमे शिरोविरेचन (अर्थात् नस्य देना) शिर-
के भारपिन और शिरकी पीडाको हरता है इन्द्रि-
योंको चैतन्य करता और रुचिकारक है, इस कारण
जीर्णज्वरमे गहड़ अथवा तेलके द्वारा नास देना
चाहिये ॥ ७०४ ॥ ७०५ ॥

रक्तकरवीरपुष्पं कुष्ठं धात्रीफलं सधा-
न्याम्बु । कल्कः सुखोष्णो लेपो ज्वरेषु
शिरसो रुजं जयति ॥ ७०६ ॥

✓ लालकनेरके फूल, कूठ, आमले, धनियाँ और
सुगन्धवाला इनको जलमे पासकर किचित् गरम कर
लेप करनेसे ज्वरमे शिरकी पीडा शांत होती है ॥ ७०६ ॥

हिङ्गुसैन्धु संयुक्तं नस्यं स्यादनवं
वृतम् ॥ ७०७ ॥

अथवा हींग और सैन्धानेनको पुराने घीमे मिला-
कर नास देनेसे शिरकी पीड़ा शांत होती है ॥ ७०७ ॥

कणामधुकमृद्धीकाबलाचन्दनशारिवाः।
निष्काथ्य पयसा पीतो जीर्णज्वर-
विनाशनः ॥ ७०८ ॥

पपिल, मुलैठी, दाख, खिरैटी, चन्दन और
सारिवा इनके क्वाथमे दूध मिलाकर पीवे तो जीर्ण-
ज्वर नाश होता है ॥ ७०८ ॥

श्वेतजयन्तीमूलं विधिना बद्धं शि-
खान्तरे हन्ति । जीर्णज्वरं नराणां
खलद्भवदुरितेन चात्मानम् ॥ ७०९ ॥

सफेद अपराजिताकी जड़को विधिपूर्वक चोटामें
बांधनेसे जीर्णज्वर इस प्रकार दूर होता है जिस
प्रकार दुर्जन मनुष्य पापसे अपने आत्माको नष्ट
करता है ॥ ७०९ ॥

तिक्तां पर्पटभूनिम्बौ मुस्तां छिन्नरुहां
पिवेत् । अभ्यासेन जयत्येष ज्वरमा-
मृत्युमातुरः ॥ ७१० ॥

कुटकी, पित्तपापडा, चिरायता, नागरमोथा और
गिलोय इनका क्वाथ नित्य पान करनेसे असिध्य
रोगी भी आरोग्य हो जाता है ॥ ७१० ॥

नावनं लङ्घनं चिन्ता व्यवायं शोक-
भीक्रुधः । एभिरेव च निद्राया नाशः
श्लेष्मातिसंक्षयान् ॥ ७११ ॥

नस्य, लघन, चिन्ता, मैथुन, शोक, भय और क्रोध
इत्यादि कारणोंसे और कफके अत्यन्त क्षय होनेसे
निद्राका नाश होता है ॥ ७११ ॥

गुडं पिप्पलीमूलस्य चूर्णेनालोडितं
लिहन् । चिरादपि च सन्नष्टां निद्रामा-
प्नोति मानवः ॥ ७१२ ॥ सायं स्विन्न-
मशेषं कृत्वा वार्त्ताकमेव पृत्रह्नि ।

मधुयुतमश्रन्नचिरान्नष्टामप्याप्नुयान्नि-
द्राम् ॥ ७१३ ॥

पीपलामूलके चूर्णको गुडमें मिलाकर भक्षण कर-
नेसे बहुत दिनोंकी नष्ट हुई निद्रा आजाती है. वैगनको
सन्ध्यासमय उवालकर उसमें शहद मिलाकर प्रातः-
काल भक्षण करे तो बहुत दिनोंकी नष्ट हुई भी निद्रा
अवश्य आती है ॥ ७१२ ॥ ७१३ ॥

वायसजङ्घामूलं मूलं वा शिरसि का-
कमाच्याश्च । विधृतं निद्राकरणं सुद्ध-
मूलं वाऽशितं सगुडम् ॥ ७१४ ॥

काकजंघा (मिसी) की जड़ अथवा मकोयकी
जड़को शिरपर धारण करनेसे अथवा थूहरकी जड़-
को गुडके साथ भक्षण करनेसे अवश्य निद्रा आती
है ॥ ७१४ ॥

निद्रानाशे प्रकर्तव्यं पादयोर्मृदुमर्द-
नम् । तिलतैलारनालाभ्यां शतधात-
घृतेन च ॥ ७१५ ॥

निद्राके नष्ट होनेपर रोगीके दोनों पाँवोंपर तिलके
तेलका, कांजी और सौवार धुले हुए घी आदि मृदु
पदार्थोंका मर्दन करे ॥ ७१५ ॥

छागक्षीरेण विजयां पिष्ट्वा पादौ प्रले-
पयेत् । तेनायति पुनर्निद्रा चिरका-
लगतापि वा ॥ ७१६ ॥

भांगको बकरीके दूधमे पीसकर पाँवोंमे प्रलेप
करनेसे बहुत दिनोंकी गई हुई भी निद्रा अवश्य आ
जाती है ॥ ७१६ ॥

सुस्वरं श्रावयेच्चापि संगीतं मधुरस्व-
नम् । कर्णसंपूरणाद्वापि निद्रामाप्नोति
मानवः ॥ ७१७ ॥

सुन्दर २ स्वरोको श्रवण करनेसे तथा संगीत
और नानाप्रकारके राग, रागिनियोको सुननेसे एवं
कर्णपूर्णसे भी निद्रा आ जाती है ॥ ७१७ ॥

मारिचं लालया दृष्ट्वा कस्तूर्याजन-
मिप्यते । त्रिरात्रादपि सन्नष्टां निद्रा-
माप्नोति मानवः ॥ ७१८ ॥

कालीमिरच और कस्तूरी इनको लारमें घिसकर नेत्रोंमें आजनेसे तीन दिनकी नष्ट हुई निद्रा फिर आजाती है ॥ ७१८ ॥

क्षीणे कफे ज्वरे जीर्णे स्वल्पदोषे पिपासिते । दाहार्ते च पयो योज्यं तत्रवेतु विषं भवेत् ॥ ७१९ ॥

क्षीणकफवाले, जीर्णज्वरवाले, अल्पदोषवाले, तृपासे पीड़ित और दाहसे पीड़ित इतने मनुष्योंको दूध पिलाना अत्यन्त हितकारी है परन्तु वही दूध नवीन ज्वरमें विपके समान अपकारी है ॥ ७१९ ॥

श्वासात्कासाच्छिरःशूलात्पार्श्वशूलात्सपीनसात् । मुच्यते ज्वरितः पीत्वा पञ्चमूलीशृतं पयः ॥ ७२० ॥

पंचमूल (सालपर्णी, पृश्निपर्णी, कटेरी, कटाई और गोखरू) को क्षीरपाकविधिसे पकाकर पान करनेसे श्वास, खाँसी, शिरःशूल, पार्श्वशूल और पीनसरोग दूर होता है ॥ ७२० ॥

क्षीरपाकविधि ।

द्रव्यादष्टगुणं क्षीरं क्षीरात्तुयं चतुर्गुणम् । क्षीरावशेषः कर्तव्यः क्षीरपाके त्वयं विधिः ॥ ७२१ ॥

अब क्षीरपाककी विधि कहते हैं । काथद्रव्योंस आठभाग तो दूध लेवै और दूधसे चौगुना जल लेवै फिर यथाविधिसे पकावै जब जल जलजाय केवल दूध बाकी रहिजाय तब उतार लेवै ॥ ७२१ ॥

सिताज्यविश्वखर्जूरीमृद्धीकाभिः शृतं पयः । शीतं मधुयुतं पीतं तृडदाहज्वरनाशनम् ॥ ७२२ ॥

✓ चीनी (सफेदखांड), घी, सोठ, खजूर और दाख इनको क्षीरपाककी विधिसे पकावै, जब शीतल होजावै तब सहद डालकर पान करे तो तृपा, दाह और ज्वर नष्ट होवै ॥ ७२२ ॥

त्रिकण्टकवलाव्याघ्रीगुडनागरसाधितम् । वर्चोभूत्रविवन्धघ्नं शोथज्वरहरं पयः ॥ ७२३ ॥

✓ गोखरू, खिरैटी, कटेरी, गुड और सोठ इनका दूधमें औटाकर पान करनेसे मलमूत्रका विबन्ध, सूजन और ज्वर नष्ट होता है ॥ ७२३ ॥

पृथ्वी च बिल्ववर्षा भूपयश्चोदकमेव च । क्षीरावशिष्टं तत्पीतं तद्धि सर्वज्वरापहम् ॥ ७२४ ॥

✓ बडी इलायची, बेलगिरी और सफेद पुनर्नवा इनको क्षीरपाककी विधिसे दूध और जलमे पकावै जब केवल दूधमात्र बाकी रहजाय तब उतारकर शीतल करके पान करै यह सब प्रकारके ज्वरोंको नष्ट करे है ॥ ७२४ ॥

चूर्णं त्रिवृत्कणाश्यामात्रिफलानां सितासमम् । भेदि कोष्ठरुजादाहगौरवज्वरनाशनम् ॥ ७२५ ॥

निसोत, पीपल, अनंतमूल, त्रिफला और मिश्री इन सबको एकत्र पीसकर चूर्ण करले वह चूर्ण भेदक कोठेके रोग, दाह, गुरुता और ज्वरनाशक है ॥ ७२५ ॥

साधितं बिल्वपेशीभिर्मूलेनाऽमण्डकस्य च । सद्यो हन्ति पयः पीतं ज्वरं सम्परिवर्तिकम् ॥ ७२६ ॥

बेलगिरी और अंडकी जड़को क्षीरपाककी विधिसे पकावै इसको पान करनेसे जीर्णज्वर दूर होता है ॥ ७२६ ॥

मधुकारग्वधद्राक्षातिकायासफलत्रिकैः । सपटोलैर्जलं भेदि ज्वरं हन्ति त्रिदोषजम् ॥ ७२७ ॥

सुलैठी, अमलतासका गूदा, दाख, कुटकी, जवास त्रिफला और पटोलपत्र इनका काथ बनाकर पान करनेसे अच्छे प्रकारसे विरेचन होती है और त्रिदोषज्वर दूर होता है ॥ ७२७ ॥

ज्वरक्षीणस्य न हितं वमनं न विरेचनम् । कासन्तु पायसंतस्य निरुहैर्वा हरेन्मलान् ॥ ७२८ ॥

ज्वरसे क्षीण मनुष्यको न वमन हितकारी और न विरेचन हितकारी है उसको इच्छानुसार दूध पिलावे अथवा निरुह वारिके द्वारा मलको निकालै ॥ ७२८ ॥

अरोचके गात्रसादे वैषण्येङ्गमलादिषु । शान्तज्वरेऽपि शोध्यः स्यादनुबन्धभयान्नरैः ॥ ७२९ ॥

ज्वरके जांत होनेपर भी जो अरुचि, अंगगलानि, विवर्णता और अंगमे मलादिक जम गया हो तो अनुबन्धके भयसे वमन विरेचनादिकसे जोधना चाहिये ॥ ७२९ ॥

ज्वरोष्मणा ज्वरेऽजीर्णे वायुः कुप्यति रूक्षिते । घृतं संशमनं तस्य दीतस्यैवाम्बु वैश्मनः ॥ ७३० ॥

✓ जीर्णज्वरमे ज्वरकी उष्णतासे और शरीरकी रूक्षतासे वायु कुपित होता है उसको शमन करनेके लिये घृत पिलाना चाहिये जिस प्रकार जलते हुए घरको जलसे सेचना चाहिये ॥ ७३० ॥

कल्याणकं कट्फलकं घृतं जीर्णज्वरे पिबेत् ॥ ७३१ ॥

जीर्णज्वरमे कल्याणघृत और कट्फलक घृतसेवन करना चाहिये ॥ ७३१ ॥

कौक्कुटघृत ।

कुक्कुटं तरुणं सद्यः कृत्वा पादान्त्ववर्जितम् । तस्य मांसस्य कुर्वीत शृतं पलशतं भिषक् ॥ ७३२ ॥ बृहती कण्टकारी च शृङ्गी कर्कटकस्य च । बदराणि कुलित्थानि भाङ्गीं ह्यामलकी तथा ॥ ७३३ ॥ शटी पुष्करमूलश्च पञ्चमूलं महत्तथा । एतत्तुलाश्च संगृह्य द्विट्रोणे त्वम्भसः पचेत् ॥ ७३४ ॥ पादशेषं परिस्त्राव्य कषायं ग्राहयेद्विषक् । षड्गुणं क्षीरमाहत्य विपचेत्तु घृताढकम् ॥ ७३५ ॥ तत्र कल्कीकृतं दद्यादस्वल्पं

पञ्चमूलकम्पातत्साधुसिद्धं विज्ञाय शुभे भाण्डे निधापयेत् ॥ ७३६ ॥ तस्य काले पिबेन्मात्रां बलं दोषमवेक्ष्य च । जीर्णे तस्मिंस्तु भुञ्जीत रक्तशाल्योदनं तथा ॥ ७३७ ॥ जीर्णज्वरोपसृष्टानां शुष्यतां श्वासकासिनाम् । प्रयोज्यं कौक्कुटं सर्पिर्यक्षिमाणां विपमज्वरे ॥ ७३८ ॥ लेखनं बृंहणीयश्च बलवर्णाग्निवर्धनम् ।

एक उत्तम तरुण मुरगेको लेकर उसके पाँव और आंते पृथक् करदेवे पश्चात् उसके मांसको साफ करके ४०० पल जलमे पकावे जब जल १०० पल बाकी रहजाय तब उतारकर छानलेवे, पश्चात् कटाई, कटेरी, काकडाशिंगी, बेर, कुलथी, भारंगी आमले, कचूर, पोहकरमूल और बृहत्पंचमूल यह सब १०० पल लेकर दो ट्रोण जलमे पकावे, जब जल चौथा भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छानलेवे, फिर छैगुना दूध लेवे और एक आठक उत्तम घी लेवे और स्वल्प पंचमूलका कल्क वनावै सबको एकत्र मिलाकर उत्तम विधिसे घृतको सिद्ध करे । पश्चात् उत्तम चिकने वासनमे भरके रख देवे, फिर शुभदिनमे समय, बल और दोपोका विचार कर मात्राका निरूपण कर पान करे, जब यह घृत जीर्ण होजावे तब लाल शालिधानोके चावलोका भात भोजन करे । यह कौक्कुटघृत जीर्णज्वरसे पीडित, शोष, ज्वास, खाँसी राजयक्ष्मा और विपमज्वरमे प्रयोग करे । यह-लेखन पुष्टिकारक तथा बल, वर्ण और जठराग्निको दीपन करनेवाला है ॥ ७३२ ॥ ७३३ ॥ ७३४ ॥ ७३५ ॥ ७३६ ॥ ७३७ ॥ ७३८ ॥

✓ वासादिघृत ।

वासां गुडूर्चीं त्रिफलां त्रायमाणं दुरालभाम्पक्त्वाऽनेन कपायेन पयसा द्विगुणे च ॥ ७३९ ॥ पिप्पलीमुस्तमृद्धीकाचन्दनोत्पलनागरैः । कल्कीकृतैश्च विपचेद्घृतं जीर्णज्वरापहम् ॥ ७४० ॥

अइसा, गिलोच, त्रिफला त्रायमाण और धमासा इनके काथमे दूना दूध मिलाकर और पीपल, नागरमोथा

दाख, चन्दन, कमल और सौंठ इनका कल्क मिलाकर उत्तम गौका घी मिलाकर इस वासाद्य घृतको सिद्ध करे यह वासाद्य घृत जीर्णज्वरनाशक है ७३९ ॥
॥ ७४० ॥

(घृतकाथदुग्धविधि)

अत्र चाष्टगुणे तोये कथिते काथदुग्धयोः । प्रत्येकं द्विगुणं भागं पृथक्सर्पिषु निक्षिपेत् ॥ ७४१ ॥

यहाँ अठगुने जलमें काथ बनाकर और दूध प्रत्येक दो भाग लेकर घीमें डालने चाहिये ॥ ७४१ ॥

कल्काच्चतुर्गुणः स्नेहः स्नेहात्काथश्चतुर्गुणम् । काथाच्चतुर्गुणं वारि काथः काथ्यसमो मतः ॥ ७४२ ॥ मृदौ चतुर्गुणं देयं कठिनेऽष्टगुणं तथा । कठिनात्कठिने द्रव्ये देयं षोडशिकं जलम् ॥ ७४३ ॥ मृदादिकाथ्यसङ्घाते मानसुक्तं चिकित्सकैः । मध्यस्योभयभागित्वादिच्छन्त्यष्टगुणं जलम् ॥ ७४४ ॥ पलैः षोडशभिः प्रस्थं शुष्काणां तद्विदो विदुः । द्विगुणं स्वरसाद्राणां तैलक्षीरघृताम्भसाम् ॥ ७४५ ॥

कल्कसे स्नेह (घृत) चौगुना, स्नेहसे काथ चौगुना और काथसे चौगुना जल तथा काथके जलके समान औषधि मृदुद्रव्योंमें जल चौगुना कठिन द्रव्योंमें अठगुना और अत्यंत कठिन द्रव्योंमें सोलहगुना जल डालना चाहिये यह मृदादि द्रव्योंके भेदसे काथ बनानेके लिये वैद्योंने मान कहा है । मध्यद्रव्योंके दो भाग होनेसे अठगुना जल डालना चाहिये सूखे द्रव्योंका सोलहपल प्रस्थ माना जाता है । स्वरस गीले पदार्थ तैल घृत और जल यह दुग्धने लेने चाहिये ॥ ७४२ ॥ ७४३ ॥ ७४४ ॥ ७४५ ॥

न लभ्यते रसो येषां काथन्तेषान्तु निक्षिपेत् । त्रिफलाव्यतिरेकेण मतमेतत्पतञ्जलेः ॥ ७४६ ॥

जिन औषधियोंका स्वरस न मिले उनका काथ लेना चाहिये परन्तु त्रिफलेका सदैव काथ ही लेना चाहिये यह पतञ्जलिका मत है ॥ ७४६ ॥

पिप्पल्यादिघृतम् ।

पिप्पल्यश्चन्दनं मुस्तमुशीरं कटुरोहिणी । कलिङ्गका त्वामलकी शारिवातिविषे स्थिरा ॥ ७४७ ॥ द्राक्षामलकबीजानि त्रायमाणा निदग्धिका । सिद्धमेतद्घृतं सद्यो जीर्णज्वरमपोहति ॥ ७४८ ॥ क्षयं कासं शिरःशूलं पार्श्वशूलमरोचकम् । अङ्गाभितापमग्निश्च विषमं सन्नियच्छति ॥ ७४९ ॥

पिपल, लालचन्दन, नागरमोथा, खस, कुटकी, इन्द्रजौ, आमले, शारिवा, अतीस, सालपर्णी, दाख, इमलीके बीज, त्रायमान और कटेरी इन सब औषधियोंके कल्क और काथके द्वारा घृतको सिद्ध करे । यह पिप्पल्यादि घृत तत्काल ही जीर्णज्वरको नष्ट करे है । तथा क्षय, खाँसी, शिरःशूल, अरुचि, पार्श्वशूल, शरीरसंताप और मन्दाग्निको दूर करे है ७४७ ॥ ७४८ ॥ ७४९ ॥

जलस्नेहौषधानान्तु प्रमाणं यत्र नेरितम् । तत्र स्यादौषधात्स्नेहः स्नेहासौयं चतुर्गुणम् ॥ ७५० ॥

जहाँ जल, स्नेह और औषधियोंका प्रमाण नहीं कहा वहाँ औषधियोंसे स्नेह चौगुना और स्नेहसे चौगुना जल लेना चाहिये ॥ ७५० ॥

पिप्पल्याद्यभिदं कापि तन्त्रे क्षीरेण पच्यते । यत्राधिकरणेनोक्तिर्गणे स्नेहस्य संविधौ । तत्रैव कल्कनिर्यूहाविष्येते स्नेहवेदिना ॥ ७५१ ॥ एतद्वाक्यबलेनैव कल्कसाध्यपरं घृतम् ॥ ७५२ ॥

किसी २ ग्रंथकारके मतसे इस पिप्पल्यादि घृतमें दूध भी डाला जाता है । जिस स्नेहपाकमें कल्क और काथका विधान नहीं कहा, वहाँ स्नेहको जाननेवाले वैद्योंको उसी स्नेहकी औषधियोंका कल्क और काथ बनाकर डालना चाहिये इस वचनके अनुसार इस घृतको कल्कके द्वारा सिद्ध करना चाहिये ॥ ७५१ ॥ ७५२ ॥

क्षीरवृक्षादि तैल ।

क्षीरवृक्षासनारिष्टजम्बूसतच्छदारुर्नैः । शिरीष-खदिरास्फोतामृत-बल्याट-

रूपकैः । ७५३ ॥ कटुकापर्पटो-
शीरवचातेजोवतीघनैः । साधितं
तैलमभ्यङ्गादाशु जीर्णज्वरं जये-
त् ॥ ७५४ ॥

क्षीरवृक्ष (वट, पीपल, गूलर, पारिसपीपल, पाखर, सत्तान) विजयसार, नीमकी छाल, जामुनकी छाल, अर्जुनकी छाल, सिरसकी छाल, खैरकी छाल, अपराजिता (कोयली) गिलोय, अड्डसा, कुटकी, पित्तपापडा, खस, वच, तेजवल और नागर-मोथा इन सब औषधियोंके द्वारा तेलको सिद्ध करे । इस तेलको शरीरपर मालिस करनेसे शीघ्र ही जीर्ण-ज्वर नष्ट होता है ॥ ७५३ ॥ ७५४ ॥

जीर्णज्वर ।

चन्दनाद्यं हितं तैलं शोषाधिकार-
कीर्तितम् । तथा नारायणं तैलं जी-
र्णज्वरहरं परम् ॥ ७५५ ॥

शोषाधिकारमें कहा हुआ चन्दनादितैल और वात-
व्याधिमें कहा हुआ नारायण तैल जीर्णज्वरमें प्रयोग
कराने चाहिये क्योंकि यह जीर्णज्वरको हरने-
वाला है ॥ ७५५ ॥

जीर्णज्वरेषु सर्वेषु दोषे पक्वाशयाश्रिते ।
स्नेहवस्तिः प्रयोक्तव्यः सनिरूहो
यथाविधि ॥ ७५६ ॥

सब प्रकारके जीर्णज्वरोमें वातादि दोष जब पक्वा-
शयमें प्राप्त होजावै तब स्नेहवस्ति और निरूह वस्ति
प्रयोग करे ॥ ७५६ ॥

गुडूच्यादिघृत ।

गुडूच्या रसकल्काभ्यां त्रिफलाया-
वृषस्य वा । मृद्धीकाया बलायाश्च
सिद्धाः स्नेहा ज्वरच्छिदः ॥ ७५७ ॥

गिलोयके स्वरस अथवा कल्कके द्वारा किवा
त्रिफलेके काथ अथवा कल्कके द्वारा या अड्डसेके
काथ और कल्कके द्वारा, या खिरैटीके काथ और
कल्कके द्वारा घृतको सिद्ध करै यह—घृत—सर्वप्र-
कारके ज्वरोंको हरनेवाला है ॥ ७५७ ॥

क्षीरषट्पलघृत ।

पञ्चकोलैः ससिन्धूतैः पलिकैः पयसा ।

समम् । सर्पिःप्रस्थं शृतं शीह-
विषमज्वरनाशनम् ॥ ७५८ ॥

पंचकोल (पीपल, पीपलामूल, चन्च, चीता, सौंठ) और सैधा नोन यह प्रत्येक चार चार तोले लेकर काथ बनावै और काथकी बराबर दूध तथा त्री ८ पल लेवै, सबको यथाविधिसे मिलाकर घृतको सिद्ध करे, यह क्षीरषट्पलघृत—शीहा और विषमज्वरको नष्ट करे है ॥ ७५८ ॥

अत्र द्रवान्तरानुक्तौ क्षीरमेव चतुर्गु-
णम् । द्रवान्तरेण योगे हि क्षीरं स्ने-
हसमं भवेत् ॥ ७५९ ॥

स्नेहपाकमें जहां कोई द्रव्य पदार्थ नहीं कहा हो
केवल दूधसे ही पाक करना होय तो स्नेहसे दूध
चौगुना लेना चाहिये और जो कोई द्रवद्रव्य कहा
हो तो स्नेहके समान दूध डालकर पाक करना
चाहिये ॥ ७५९ ॥

दशमूलीक्षीरषट्पलघृत ।

दशमूलीरसे सर्पिः सक्षीरे पञ्चको-
लकैः । सक्षारैर्हन्ति तत्सिद्धं ज्वर-
कासाग्निमन्दताः ॥ वातपित्तकफ-
व्याधीन्प्लीहानं चापकर्षति ॥ ७६० ॥

दशमूल और पंचकोलके काथमें दूध और घृत
मिला कर घृतको सिद्ध करै । यह घृत—ज्वर, खासी
मंदाग्नि, वात, पित्त और कफके रोग एवं प्लीहाको
नष्ट करे है ॥ ७६० ॥

बलाद्यघृत ।

बलः श्वदंष्ट्रां बृहन्तीं कलशीं धाव-
नीं स्थिराम् । निम्बं पर्पटकं मुस्तं
त्रायमाणां डुरालभाम् ॥ ७६१ ॥
कृत्वा कषायं कल्कार्थं दद्यादामल-
कीं शठीम् । द्राक्षापुष्करमूलश्च
मेदामामलकानि च ॥ ७६२ ॥ घृतं
पयश्च तत्सिद्धं सर्पिज्वरहरं परम् ।
क्षयकासप्रशमनं शिरःपार्श्वरुजा-
पहम् ॥ ७६३ ॥

विरेटी, गोखरू, बड़ी कटेरी, पृश्निपर्णी, कटेरी, शालपर्णी, नीमकी छाल, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, त्रायमाण और धमासा इनका काथ एवम् आमले, कचूर, दाख, पोहकरमूल, भेदा और आमले इनका कल्क तथा दूध और घी, सबको यथाविधिसे मिलाकर सिद्ध करे । यह वलाद्यघृत-क्षय, खॉसी, शिर और पसलियोंकी पीड़ाको नष्ट करता है ॥ ७६१ ॥ ७६२ ॥ ७६३ ॥

अत्राप्यष्टगुणैस्तोयैः काथितः काथदुग्धयोः । प्रत्येकं द्विगुणो भागः कर्तव्यो भिषजा घृते ॥ ७६४ ॥

यहाँपर भी अठगुने जलमें काथ बनाकर, काथ और दूध प्रत्येक दो भाग घृतमें डालकर पकाने चाहिये ॥ ७६४ ॥

बृहद्रासादि घृत ।

वासामृतारिष्टभाङ्गीपञ्चमूलफलत्रिकैः । सपायसमधुद्राक्षाकाशमीरैरक्षसम्मितैः ॥ ७६५ ॥ घृतप्रस्थं विपक्तव्यमेभिर्मात्रामतः पिबेत् । बृहद्रासाघृतं प्रोक्तमेतत्सर्वज्वरापहम् ७६६

अङ्गुसा, गिलोय, नीमकी छाल, भारंगी, पंचमूल, त्रिफला, क्षीरकाकोली, मुलैठी, दाख और कुम्भेर ये प्रत्येक दो दो कर्ष लेकर काथ बनावे उस काथमें दूध और घी मिलाकर घृतको सिद्ध करे । यह वासाघृत सर्वप्रकारके ज्वरोंको हरनेवाला है ॥ ७६५ ॥ ॥ ७६६ ॥

मञ्जिष्ठादि घृत ।

मञ्जिष्ठातिविषा पथ्या वचा नागररोहिणी । देवदारु हरिद्रा च द्रोणेऽपां पालिकान्पचेत् ॥ ७६७ ॥ काथेऽस्मिन्साधयेत्पिष्टैर्घृतप्रस्थं पिचून्मितैः शृङ्गवेरकणाहिङ्गुद्विक्षारपटुपञ्चकैः ॥ ७६८ ॥ तत्कफाघृतसर्वैकज्वरिणाममृतोपमम् । वर्ध्महिध्मारुचिश्वासपाण्डुरोगविकारिणाम् ॥ ७६९ ॥ मलग्रहप्रमेहार्शःप्लीहापस्मारशापेणाम् । उदावर्तपरीतानां मन्दाग्निक्विकृष्टिणाम् ॥ ७७० ॥

मजीठ, अतीस, हरड़, वच, सोंठ, कुटकी, देवदारु और हल्दी ये प्रत्येक चार चार तोले लेकर एक द्रोण जलमें काथ बनावे उसमें आर्द्रक, पीपल, हींग, जवाखार, सजी और पाँचो नमक इन प्रत्येकका कल्क एक एक तोला तथा घृत ६४ तोले मिलाकर यथाविधिसे घृतको सिद्ध करे । यह मंजिष्ठादिघृत-कफज्वरवाले रोगियोंको अमृतके समान गुणकारी है तथा वर्ध्मरोग, हिध्म, अरुचि, श्वास, पाण्डुरोग, मलबंध, प्रमेह, ववासीर, प्लीहा और अपस्मार, शोषरोग, उदावर्त, मंदाग्नि, कृमि और कुष्ठरोगियोंको अत्यन्त हितकरि है ॥ ७६७ ॥ ७६८ ॥ ७६९ ॥ ७७० ॥

कुलित्थादि घृत ।

कुलित्थकोलत्रिफलादशमूलयवान्पचेत् । द्विपलान्सालिलद्रोणे घृते पिष्टाक्षकान्क्षिपेत् ॥ ७७१ ॥ पञ्चकोलकसप्ताहा वयस्था हिङ्गुतुम्बुरूशटी पुष्करमूलार्कमूलं प्रतिविषा वचा ॥ ७७२ ॥ किराततित्तकं मुस्तं कर्कटाख्या दुरालभा । नक्तमालमुभे पाठे कटुका शिशु तेजनी ॥ ७७३ ॥ सोमवलकं द्विरजनी कटुकी कण्टकारिका । पटोलनिम्बगोजिह्वाकम्बुका मदनी जटा ॥ ७७४ ॥ लवणानि पलांशानि क्षारानर्द्धपलोन्मितान् । प्रस्थं चाज्यस्य तत्सिद्धं दीपनं कफवातजित् ॥ ७७५ ॥

कुलथी, वेर त्रिफला, दशमूल और इन्द्रजौ ये प्रत्येक दो दो पल लेकर एक द्रोण जलमें पकाव फिर चतुर्थांश शेष रहने पर उतार ले । तथा पंचकोल, (पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता और सोंठ) सतवन हरड़, हींग, तुम्बरू, कचूर, पोहकरमूल, आककी जड़, अतीस, वच, चिरायता, नागरमोथा, काकड़ा-शिगी, धमासा, करंज, पाढल, कठपाढल, कुटकी, सैजिना, तेजवल, कायफल, हलदी दारुहलदी, कुटकी, कटेरी, पटोलपात, नीमकी छाल, गोजिया, असगंध, मैतफल और वालछड़ ये प्रत्येक एक एक कर्ष, नमक चार तोले और जवाखार दो तोले एत्रं गायका

वी१ प्र० लवैफिर सबको उत्तमप्रकारसे मिलाकर विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे । ७७१ ॥ ७७२ ॥ ७७३ ॥ ७७४ ॥ ७७५ ॥

हृत्प्लीहत्रहणीगुल्मश्वासकासारशांसां हि-
तम् । दीर्घज्वराभिभूतानां ज्वरि-
णाममृतोपमम् ७७६ ॥

यह कुलित्यादिवृत्-डीपन और कफवातनाशक है हृदय, प्लीहा, संग्रहणी, गुल्म, ज्वास, खाँसी और बवासीरमें अत्यन्त हितकारी है । एवं दीर्घकालके ज्वररोगियोंको अमृतके समान हितकारी है ॥ ७७६ ॥

षट्चरण तैल ।

लाक्षामधुकमञ्जिष्ठा मूर्वाचन्दनसा-
रिवाः । तैलं षट्चरणं नाम ह्यभ्य-
ङ्गाज्ज्वरनाशनम् ॥ ७७७ ॥

लाख, मुलैठी, मजीठ, चुरनहार, चन्दन और सारिवा इनके कल्क और काथके द्वारा तैलको सिद्ध करे । इस षट्चरणतैलकी शरीरादिमें मालिस करनेसे ज्वर नष्ट होता है ॥ ७७७ ॥

षट्क तैल ।

लाक्षा निशा कुष्ठशुण्ठी मञ्जिष्ठा च
सुवर्चिका । मूर्वाचन्दनसंसिद्धं तैलं
तक्रैश्च षट्गुण अभ्यङ्गन प्रशाम्येत ।
दाहं शीतज्वरापहम् ॥ ७७८ ॥

लाख, हल्दी, कूठ, सोठ, मजीठ, सजी, मूर्वा और चन्दन इनके कल्क और काथके द्वारा १ भाग तैलको ६ भाग तक्रके साथ मिलाकर विधिपूर्वक सिद्ध करे इस तैलको शरीरादिमें मलनेसे दाह और शीतज्वर नष्ट होता है ॥ ७७८ ॥

अङ्गारक तैल ।

मूर्वा लाक्षा हरिद्रे द्वे मञ्जिष्ठा सेन्द्र-
वारुणी । वृहती सेन्धवं कुष्ठं रास्ना
मांसी शतावरी ॥ ७७९ ॥ आरना-
लाठकेनात्र तैलस्थं विपाचयेत् ।

तैलमङ्गारकं नाम सर्वज्वरघ्निनाश-
नम् ॥ ७८० ॥

मूर्वा, लाख, कूठी, दान्हन्डी, मजीठ, उन्नाचन, वड़ी कटेरी, सैयानोन, कूठ, रायसन, बालकूठ और शतावर उनके काथमें एक आठक कांजी और १ प्रस्थ तैल मिलाकर विधिपूर्वक तैलको सिद्ध करे यह अङ्गारक तैल—सर्वप्रकारके ज्वरोंको हरनेवाला है ॥ ७७९ ॥ ७८० ॥

लाक्षादि तैल ।

लाक्षारससमं तैलं तैलान्मस्तु चतु-
र्गुणम् । अधगन्धानिशादारुकोन्ती-
कुष्ठवृचन्दनेः ॥ ७८१ ॥ समूर्वारो-
हिणीरास्नाशताह्वामधुकैः समैः ।
सिद्धं लाक्षादिकं नाम तैलमभ्यंज-
नादिना ॥ ७८२ ॥ सर्वज्वरक्षयो-
न्मादसर्वापरमारवातनुत् । यक्षराक्ष-
सभूतघ्नं गर्भिणीनां प्रशस्यते ॥ ७८३ ॥

लाखका रस या काथ एकभाग, तैल १ भाग और वहीका तोड ४ भाग एवं असगंध, हल्दी, देव-
दारु, रेणुका, कूठ, नागरमोथा, चन्दन, मूर्वा, कुटकी, रास्ना, शतावर और मुलैठी इनका कल्क समान भाग सबको मिलाकर विधिपूर्वक तैलको सिद्ध करे । इस तैलको शरीरपर मर्दन करनेसे सर्वप्रकारके ज्वर, क्षय, उन्माद सर्वप्रकारका अपस्मार, यक्ष, राक्षस और भूतवाधा नष्ट होती है । एवं गर्भिणी स्त्रियोंको यह अत्यन्त हितकारी है ॥ ७८१ ॥ ७८२ ॥ ७८३ ॥

महालाक्षादि तैल ।

लाक्षा हरिद्रा मञ्जिष्ठा फेनिलं मधुकं
बला । लामज्जकं चन्दनश्च गैरिकं
नीलमुत्पलम् ॥ ७८४ ॥ एषां भागा-
न्समान्कृत्वा पक्त्वा तोये चतुर्गुणे ।
चतुर्भागावशेषे च गर्भे चैनं समावपेत
॥ ७८५ ॥ रेणुका पद्मकश्चैव वाजि-
गन्धा तथैव च । वेतसं चोरकं कुष्ठं
देवदारु नखत्वचम् ॥ ७८६ ॥ शत-

पुष्पा पुण्डरीकं मांसी मधुकमेव च ।
एभिरक्षसमैः कल्कैः पावाणैश्च
पेषितैः ॥ ७८७ ॥ मस्तुशुक्कारनाला-
नाम्नाहकाढकमावपेत । क्षीराहकस-
मायुक्तं तैलप्रस्थं विपाचयेत् । तद्-
भ्यंगात्क्षपयति तैलं दाहं न संशयः
॥ ७८८ ॥ वातपित्तभवं क्षिप्रं ज्वर-
मेतन्नियच्छति । सप्रलापश्च तृष्णाश्च
तालुशोषणमुल्बणम् ॥ ७९९ ॥ ग्रहो-
चक्षुष्टा ये वाला रक्षःसन्दूषिताश्च ये ।
तेषां कष्टं प्रशमयेत्तैलं लाक्षादिकं
महत् ॥ ७९० ॥

लाव, हल्दी, मजीठ, रीठा, मुलैठी, खिरौटी,
लामजक, तृण, चन्दन, गेरु और नील कसल ये
सब समान भाग लेकर चौगुने जलमें पकावे जब
चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छान-
लेवे फिर उसमें रेणुका, पद्माख, असगंध, वेत,
चोरक, कूठ, देवदारु, नखद्रव्य, दालचीनी, सौंफ,
पुंडरिया, बालहड़ और मुलैठी ये प्रत्येक एक एक
कण लेकर सिलपर पीसकर मिला देवे, तथा दहीका
तोड़ १ आढक, गुक्तकांजी १ आढक, दूध १ आढक
और तैल एक प्रस्थ । सबको मिलाकर विधिपूर्वक
तैलको सिद्ध करे । इसको शरीरादिमें मलनेसे
निःसंदेह दाह दूर होती है । तथा वातपित्तोत्पन्न ज्वर,
प्रलाप, तृष्णा, तालुशोष, जो बालक ग्रहवाधासे
पीडित है और राक्षसवाधासे दुःखित है उनके
कष्टको दूर करनेके लिये यह महालाक्षादि तैल
अत्युत्तम है ॥ ७८४ ॥ ७८५ ॥ ७८६ ॥ ७८७ ॥
॥ ७८८ ॥ ७९९ ॥ ७९० ॥

स्वर्जिकादि तैल ।

स्वर्जिकाकुष्ठमंजिष्ठा लाक्षामूर्वा मही-
षधैः । सक्षीरैः साधितं तैलमभ्याङ्गा-
दाहशीतनुत् ॥ ७९१ ॥

सजी, कूठ, मजीठ, लाख, मूर्वा और सोठ
इनके कल्ककेद्वारा दूध और तैलको एकत्र मिलाकर
तैलको सिद्ध करे । इसको शरीरपर मर्दन करनेसे
दाह और शीत दूर होता है ॥ ७९१ ॥

बलादि तैल ।

बलामधुकमजिष्ठापक्षपद्मकचन्दनैः ।
समुद्रफेनहीविररजनगैरिकोत्पलैः ॥
॥ ७९२ ॥ पिष्टैरेतैः पचेत्तैलं मस्तु-
क्षीरं चलुर्गुणम् । वातपित्तज्वराज्जी-
र्णान्तेनाभ्यक्तः प्रमुच्यते ॥ ७९३ ॥

खिरौटी, मुलैठी, मजीठ, कसल, पद्माख,
चन्दन, रामुद्रफेन, सुगंधवाला, हल्दी, गेरु और
कुमोदनी (बबूला) इन सबको समभाग लेकर
एकत्र पीसकर कल्क बनावे फिर तिलका तैल १
भाग दहीका तोड़ ४ भाग और दूध ४ भाग
लेवे । सबको यथाविधिसे मिलाकर तैलको सिद्ध करे
इसको शरीरादिपर मर्दन करनेसे वात, पित्त और
जीर्णज्वरादि सब रोग दूर होते हैं ॥ ७९२ ॥ ७९३ ॥

पटोलादिस्नेह ।

पटोलपिचुमन्दाभ्यां गुडूच्यामलके-
न च । मदनेश्च शृतः स्नेहो ज्वरघ्नमु-
वासनम् ॥ ७९४ ॥

पटोलपात, नीमकी छाल, गिलोय, आमले
और मैनफल इनके काश्के द्वारा तैलको सिद्ध
करके पिचकारीके द्वारा गुठामें चढानेसे ज्वर नष्ट
होता है ॥ ७९४ ॥

पटोलाद्यनुवासन ।

पटोलमदनारिष्टगुडूचीमधुकैः शृतम् ।
श्वदंष्ट्रामदनशृङ्गीमधुकारिष्टवासकैः ॥
॥ ७९५ ॥ अश्वगन्धेति तैलस्य
कार्षिकैराढकं पचेत् ॥ अनुवासनकं
तैलं सर्वज्वरविनाशनम् । कृत्स्ना-
न्वातविकारांश्च नाशयेदपि चोत्थि-
तान् ॥ ७९६ ॥

पटोलपत्र, मैनफल, नीमकी छाल, गिलोय
मुलैठी अथवा गोखरू, मैनफल, कादड़शिगी, मुलैठी
नीमकी छाल, आड़सा और असगंध, प्रत्येक दो दो
तोले लेकर एक आढक तैलमें पकावे । फिर इस
तैलको अनुवासन वास्तिके द्वारा प्रयोग करे । यह
सब प्रकारके ज्वरको हरनेवाला है और हरएक
प्रकारके कष्टसाध्य वातविकारोंको दूर करनेवाला
है ॥ ७९५ ॥ ७९६ ॥

क्रिययास्तु गुणालाभे क्रियामन्यां
प्रयोजयेत् । पूर्वस्यां शान्तवेगायां न
क्रियासंक्रो हितः ॥ ७९७ ॥

प्रथम रोगीके लिए जो क्रिया की जाय और वह गुण न करे तो वैद्यको उचित है कि, अन्यक्रियाको प्रयोग करे परन्तु जबतक पहली क्रियाका वेग शांत होजाय तबतक दूसरी क्रिया नहीं करनी चाहिए क्योंकि मिश्रित क्रिया रोगीको हितकारक नहीं है ॥ ७९७ ॥

षड्भिः केचिदहोरात्रैः केचिदष्टाभि-
रेव च । वक्ष्यन्ति मुनयः प्रायो रस-
स्य परिवर्तनम् ॥ ७९८ ॥ परिवृत्त्या
रसस्यैव शान्तवेगा क्रिया भवेत् ।
गुणालाभे तु कर्तव्या विश्रामान्त-
रितक्षया । सैव न स्याद्यथा तस्यां
पूर्ववत्संकराद्भयम् ॥ ७९९ ॥ ज्वरे
पुराणे संक्षीणे कफपित्ते दृढाग्रये ।
रूक्षबद्धपुरीषाय प्रदद्यादनुवासनम्
॥ ८०० ॥

कोई अचार्य छ दिनरात और कोई आठदिनमे रसका परिवर्तन होना कहते हैं । जब रसका परिवर्तन होता है, तब क्रियाका वेग शांत होजाता है जब क्रिया गुण न करे तो कुछ काल विश्राम कर उसका नाश कर देवे, परन्तु जबतक उसका वेग शांत न हो तबतक संकरताके भयसे दूसरी क्रिया प्रयोग न करे । जीर्णज्वरमे, कफपित्तके क्षीण होने पर दीप्त अग्नि वाले मनुष्यको रूक्ष और मलबंधरोगीको अनुवासनवास्ति देनी चाहिए ॥ ७९८ ॥ ७९९ ॥ ॥ ८०० ॥

चन्दनाद्यनुवासन ।

चन्दनोत्पलकाश्मर्यमधुकागुरुक-
ल्ककैः ॥ सिद्धं तैलं विधातव्यं वस्तौ
सर्वज्वरापहम् ॥ ८०१ ॥

चन्दन, कमल, कुम्भेर, मुलैठी और अगर इनके कल्कके द्वारा तैलको सिद्ध करके वस्तिकर्ममे प्रयोग करना चाहिए यह तैल सब प्रकारके ज्वरोंको हरने वाला है ॥ ८०१ ॥

घृततैलगुडादीस्तु चेकाहेनैव साध-
येत । उषितास्तु प्रकुर्वन्ति विशेषेण
गुणान्बहून् ॥ ८०२ ॥

घृत, तैल और गुडादिको एक ही दिनमे सिद्ध न करे, क्योंकि ये घृत तैलादि वासी होनेपर विशेष गुण करते हैं ॥ ८०२ ॥

स्नेहकल्को यदाङ्गुल्या वर्त्तितो वर्त्ति-
वद्भवेत् । बह्वौ क्षिप्ते तु नो शब्दस्त-
दा सिद्धिं विनिर्दिशेत् ॥ ८०३ ॥

जब तैल, घृतादिके ओपधियोंका कल्कके पकते समय उसमेसे निकालकर अँगुलीसे मलनेपर वर्त्तीके समान हो जाय और तैलको अग्निमें डालनेसे चिर चिर शब्द न हो तो उसको सिद्ध हुआ समझना चाहिए ॥ ८०३ ॥

नस्ये मृदुः खरोऽभ्यङ्गे स्नेहे किट्टन्तु
मध्यमम् । नातिस्थिरं पचेद्बस्तौ
खरमभ्यङ्गने पचेत् ॥ ८०४ ॥

नस्यके लिए स्नेहका मृदुं पाक करना चाहिए अभ्यंग (मालिश) के लिए खरपाक करना चाहिए और मध्यम पाक जब तक किट्ट न हो तबतक करना चाहिए । वस्तिकर्मके लिए बहुत गाढा पाक न करे ॥ ८०४ ॥

त्रिधा स्नेहपाकलक्षण ।

तत्र स्नेहोषधिविवेकमात्रं यत्र भेषजं
स मृदुः । मधूच्छिष्टमिव विशदम-
विलेपि यत्र भेषजं स मध्यमः ।
कृष्णमवसन्नमीषद्विशदं चिकणश्च
यत्र भेषजं स खरः ॥ स्नेहपाकोऽथ
कल्के स्यान्मृदुरङ्गुलिलेपिनि । न
गृह्णात्यङ्गुलिं मध्यः शीर्यमाणः खरः
स्मृतः ॥ ८०५ ॥

स्नेहपाकके लक्षण--जब स्नेहपाकके समय कल्ककी औषधि पतली हो और करलीसे लगजाय तब उसको मृदुपाक जानना । जब कल्ककी ओषधि मोमके समान

विशद और करलीसे न लगे उसको मध्यमपाक जानना जिसमें कल्ककी औषधि काली होकर कठिन किंचित् विशद और चिकनी पडजाय उसको खरपाक कहते हैं। अन्यान्यग्रंथोंमें भी कहा है जिसमें कल्क अंगुलीपर चिपट जाय उसको मृदुपाक, जिसका कल्कअंगुलीपर नचिपट परंतु नरम हो उसको मध्यमपाक और जिसमें कल्क गलकर कठिन हो जाय उसको खरपाक कहते हैं ॥ ८०५ ॥

परं पाको मृदुः काय्यो द्रव्यस्य न-
खरो मतः । किञ्चिद्दीर्य्यं समादत्ते त-
ज्जहाति खरः पुनः ॥ ८०६ ॥

द्रव्यपाक मृदु करे खर न करे क्योंकि,
खरपाक किंचित् वीर्य्यकारक है और फिर वह छूट
जाता है ॥ ८०६ ॥

तैलपाकविधि ।

शब्दस्योपरमे प्राप्ते फेनस्योपरमे
तथा । गन्धवर्णरसादीनां संपत्तौ
सिद्धिमादिशेत् ॥ ८०७ ॥ घृतस्यैवं
विपक्वस्य जानीयात्कुशलो भिषक् ।
फेनोतिमात्रं तैलस्य शेषं घृतवदादि-
शेत् ॥ ८०८ ॥ पक्वतैलाद्भवेद्दीर्य्यं
हीनमब्दाद्धतः परम् । घृताद्धाब्दा-
त्परं पक्वं गुडादेस्त्वब्दतः परम् ॥ ८०९ ॥

स्नेहपाकके समय जब उसमें चिर चिर शब्द बंद
हो जावे झाग भी न रहे। तथा उसकी, गंध वर्ण और
रस शुद्ध होजाय तो उस घृत अथवा तैलको पकाजाने
परंतु तैलके पाकमें फेणाधिक आता है बाकी घृत
वन् है पक्वतैल छे मासके पश्चात् वीर्य्यहीन हो
जाता है और पक्व घृत एकवर्षमें वीर्य्यहीन हो जाता
है और गुड आदि पदार्थ एकवर्षके पश्चात् हीन
वीर्य्य होजाते हैं ॥ ८०७ ॥ ८०८ ॥ ८०९ ॥

आरग्वधनिरूहवस्ति ।

आरग्वधमुशीरश्च मदनस्य फलानि
च । पर्ण्यश्चतस्रो मधुकं निरूहमुपक-
ल्पयेत् ॥ ८१० ॥ प्रियङ्गुमदनं मुस्तं
मधुकश्च शताह्वया । कल्कः सर्पिगु-
डक्षौद्रैर्व्वरघ्नो वस्तिरुत्तमः ॥ ८११ ॥

१ कहीं ऐसाभी कहा है कि फेण आने लगे तो तैल सिद्ध होता
है और फेण नाश होने पर घृत सिद्ध होने पर आता है ।

अमलतासका गूदा, खस, मैनफल, मुद्गपर्णी,
मापपर्णी, शालपर्णी, पृश्निपर्णी और मुलैठी इनके
काथको निरूह वस्तिके द्वारा प्रयोग करे अथवा
फूलप्रियंगु, मैनफल, नागरमोथा, मुलैठी और सतावर
इनका कल्क घी, गुड और शहद सबको एकत्र
कर वस्ति लगावै यह ज्वरनाशक है ॥ ८१० ॥ ८११ ॥

निरूहमात्राकल्पनाविधि ।

एकादशाष्टौ षट्कश्च कषायस्य पलं
मतम् । कफपित्तानिलोत्थेषु विकारेषु
यथाक्रमम् ॥ ८१३ ॥ स्नेहस्य त्रिचतुः-
षष्टाश्चत्वारो मधुनस्तथा । पलद्वयं तु
कल्कस्य कर्षः स्यात्सैन्धवस्य च
॥ ८१४ ॥ रसक्षीराम्लमूत्राणामेकैकं
प्रक्षिपेत्पलम् । निरूहकल्पना मात्रा
कथितेषा महर्षिणा ॥ ८१५ ॥

निरूहवस्तिके विषय कफमें ११ पल, पित्तमें ८ पल
और वातमें ७ पल काढा लेवे जो स्नेह लेना
हो तो कफमें तीनपल पित्तमें ४ पल और वातमें ६
पल लेवे और सहत ४ पल, कल्क २ पल, सैन्धानोन
१ कर्ष और जो मांसरस, दूध कांजी और मूत्र ये
पदार्थ डालना हो तो प्रत्येक वस्तु १—१ पल डाले
निरूहवस्तिमें यह महर्षियोंने मात्राकी कल्पना कही
है ॥ ८१२ ॥ ८१३ ॥ ८१४ ॥

विष्णुं सहस्रमूर्द्धानं चराचरगुरुं वि-
भुम् । स्तुवन्नामसहस्रेण ज्वरान्सर्वा-
न्व्यपोहति ॥ ८१५ ॥

जिसके हजार शिर है और जो चराचरका गुरु
है, उस विष्णु भगवानके हजार नामोंको पढकर
स्तुति करनेसे सब प्रकारके ज्वर नष्ट होते हैं ॥ ८१५ ॥

धनिष्ठादिनक्षत्रोत्पन्नज्वरावाधि ।

ज्योतिश्चक्रं धनिष्ठादि वक्ष्यते दिन-
निश्चयात् । दशरात्रं धनिष्ठासु ज्वरो
भवति देहिनाम् ॥ ८१६ ॥ वारुणे-
ऽपि दशाहेन मृत्युमाप्नोति मानवः ।
षडहे द्वादशाहे वा मृत्युर्भाद्रपदासु
च ॥ ८१७ ॥ उत्तरासु भवेन्मोक्षश्च-
तुर्दशादिनोत्तरम् । चतरात्राष्टरत्रां

वा रेवत्यां वर्तते ज्वरः ॥ ८१८ ॥
 अधिकोऽपि षड्रात्रात्सुखं भवति दे-
 हिनाम् । यमदेवे समुत्पन्ने मरणं प-
 ष्वमेऽहनि ॥ ८१९ ॥ कृत्तिकासु गृही-
 तस्य सप्तरात्रं भवेज्ज्वरः । न सुश्वे-
 द्यादि साप्ताहादेकविंशतिमे सुखम् ।
 अत ऊर्ध्वं विपद्येत त्रिपक्षात्संशयो
 भवेत् ॥ ८२० ॥ रोहिण्यामष्टरात्रेण
 मुच्येदेकादशेऽहनि । मृगे च षडहं
 ज्ञेयं नवरात्रमथापि वा ॥ ८२१ ॥
 आर्द्रायामुपसृष्टस्य पञ्चाहान्मृत्युमा-
 दिशेत् । ऊर्ध्वं यद्यपि वर्तते त्रिपक्षा-
 त्संशयो भवेत् ॥ ८२२ ॥ पुनर्वसूपसृ-
 ष्टेन ज्वरेण परिपीडनात् । त्रयोदशा-
 हान्मुच्येत सप्तविंशेऽथवाहनि ॥
 ॥ ८२३ ॥ पुष्ये त्रिरात्रं ज्वरितः
 सप्तरात्रान्निवर्तते । आश्लेषासु भवे-
 न्मृत्युर्दीर्घकालक्रमात्तथा ॥ ८२४ ॥
 मघासु द्वादशाहेन मृत्युर्भवति देहि-
 नः । ऊर्ध्वं याति मघायान्तु पुनरेव
 सुखी भवेत् ॥ ८२५ ॥ पूर्वासु चोपसृ-
 ष्टस्य फाल्गुनीषु भवेद्दश । उत्तरासु
 तथा चाष्टौ नवरात्रमथापि च । एकविं-
 शतिरात्राद्वा ज्वरः सौख्यत्वमृच्छ-
 ति ॥ ८२६ ॥ हस्ते च सप्तमे मोक्ष-
 त्रित्रयायामष्टमेऽहनि । ऊर्ध्वं प्रपद्यमा-
 नो वा मुच्येच्चित्रागमे पुनः ॥ ८२७ ॥
 स्वातियोगे दशाहेन मुच्यतेऽथत्रयेण
 वा । विशाखासु भवेन्मृत्युरेकविंश-
 तिमेऽहनि ॥ ८२८ ॥ ज्वरस्तु दिवसा-
 नऽष्टावनूराधासु वर्तते । अत ऊर्ध्वं न
 मुक्तं स्यान्नास्ति तस्य चिकित्सितम्
 ॥ ८२९ ॥ ज्येष्ठायां पञ्चमे मृत्युर्द्वाद-
 शाहेन वा सुखम् । स्वास्थ्यं दशाहा-
 न्मूलेन त्रिसप्ताहे तथा गते ॥ ८३० ॥

अपाहायान्तु पूर्वायां नवमेऽहनि मु-
 च्यते । उत्तरासु त्वपाहासु मासात्कि-
 ष्यत्वसंशयः । अष्टमात्रवमान्मासा-
 त्ततोऽस्य सुखमादिशेत् ॥ ८३१ ॥ श्रव-
 णेनाष्टरात्रन्तु ह्यिश्यन्ति ज्वरपीडि-
 ताः ॥ ८३२ ॥ एतद्गवता प्रोक्तं
 नक्षत्राणां विचेष्टितम् । य एवं वेत्ति
 तत्वेन स राज्ञोऽर्ध्वनमर्हति ॥ ८३३ ॥

अब धनष्ठादि ज्योतिषक्रको दिनके निश्चयमे क-
 हता हूं धनिष्ठा नक्षत्रमे उत्पन्न हुआ ज्वर द्वा दिन
 रहता है । शतभिषा नक्षत्रमे उत्पन्न हुआ ज्वर
 द्वादिनमे मार देता है । पूर्वाभाद्रपदामे उत्पन्न हुआ
 ज्वर छ. अथवा वारहदिनमे मार देता है । उत्तराभा-
 द्रपदामे उत्पन्न हुआ ज्वर चौदह दिनके पञ्चान
 नष्ट होजाता है । रेवतीनक्षत्रमे उत्पन्न हुआ ज्वर
 चार अथवा आठ दिनतक रहता है । अधिनी-
 क्षत्रमे उत्पन्न हुआ ज्वर छ. दिनमे आरोग्य होजाता
 है । भरणीनक्षत्रमे उत्पन्न हुआ ज्वर पाँचवे दिन
 मार देता है । कृत्तिकानक्षत्रमे उत्पन्न हुआ ज्वर सात
 दिनतक रहता है और जो एक सप्ताहमे आरोग्य न
 हो तो २१ दिनमे आराम होजाता है और जो इससे
 भी अधिक दिन बीत जाय तो तनिपक्षमे सजय
 होजाता है । रोहिणी नक्षत्रमे उत्पन्न हुआ ज्वर आठ
 दिनमे अथवा ग्यारह दिनमे छूट जाता है ।
 मृगशिरामे उत्पन्न हुआ ज्वर छः दिन अथवा नौ
 दिनतक रहता है । आर्द्रानक्षत्रमे उत्पन्न हुआ ज्वर
 पांच दिनमे मार देता है । और जो इससे अधिक
 रह तो तनिपक्षमे संशय होजाता है । पुनर्वसुनक्षत्रमे
 उत्पन्न हुआ ज्वर तेरह दिन अथवा सत्ताईस दिनमे
 निवृत्त होजाता है । पुष्यनक्षत्रमे उत्पन्न हुआ ज्वर
 तीन अथवा सात दिनमे निवृत्त होजाता है । आश्लेषा-
 नक्षत्रमे उत्पन्न हुआ ज्वर बहुतकालतक रहकर
 पञ्चान् मार देता है । मघानक्षत्रमे उत्पन्न हुआ ज्वर
 वारह दिनमे मार देता है । इससे अधिक दिन
 बीत जाय तो फिर सुखी होजाता है । पूर्वाफाल्गुनी
 नक्षत्रमे उत्पन्न हुआ ज्वर आठ अथवा नौ दिनतक
 किंवा २१ दिनतक रहकर दूर होजाता है या
 मार देता है । हस्तनक्षत्रमे उत्पन्न हुआ ज्वर सातवे
 दिन और चित्रामे उत्पन्न हुआ ज्वर आठवे दिन मोक्ष

कर देता है जो आठ दिनसे अधिक दीन, जावे तो ज्वरसे मुक्त होजाता है । स्वातीनक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर दश दिन अथवा तीन दिनमें दूर होजाता है । विशाखानक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर २१ दिनमें मारदेता है । अनुराधानक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर आठ दिनतक रहता है इसके उपरांत न तो वह नष्ट होता है और न उसकी चिकित्सा है । जेष्ठानक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर पांचवे दिन मारदेता है । अथवा इसके पश्चात् १२ दिनमें सुख होजाता है । मूलनक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर दश अथवा तीनसमाहमें दूर होजाता है । पूर्वाषाढानक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर नौ दिनमें दूर होता है । उत्तराषाढानक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर एक महीनेतक दुःख देता है, फिर आठ अथवा नौ महीनेके पश्चात् दूर जाता है । श्रवणनक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ज्वर आठ दिनतक छेग देता है । यह भगवानकी कही हुई नक्षत्रों की चेष्टा कही, जो वैद्य इनके तत्त्वको जानता है, वह राजासे पूजा जाता है ॥ ८१६—८३३ ॥

धनिष्ठादि स्वस्त्ययन ।

वसुराग्निरिति धनिष्ठायां वटशुद्धमो-
दुम्बरं वा जुहुयात् ॥ १ ॥

धनिष्ठानक्षत्रमें "वसुरग्निः"—इति इस मंत्रको पढकर वटके अकुर और गलरकी लकड़ीसे आहुति देवे ॥ १ ॥

तत्त्वायामीति शतभिषजि जलपुष्पं
जुहुयात् ॥ २ ॥

"तत्त्वायामीति" इस मंत्रको पढकर शतभिषानक्षत्रमें कमलकी आहुति देवे ॥ २ ॥

उत्तरत्रहि गौहि द्वे इति पूर्वाभाद्रप-
दासु शाल्योदनं जुहुयात् ॥ ३ ॥

"उत्तरत्रहि गौहिद्वे इति" इन दोनों मंत्रोंको पढकर पूर्वाभाद्रपदामे शालिचावलोके भातकी आहुति देवे ॥ ३ ॥

अहिरिव भोगैरिति उत्तराभाद्रप-
दासु घृतौदनं जुहुयात् ॥ ४ ॥

उत्तराभाद्रपदामे "अहिरिवभोगैरिति" इसको पढकर घी और भातकी आहुति देवे ॥ ४ ॥

पूष्णो प्राश्येति रेवत्यां फलान्यक्ष-
लानि जुहुयात् ॥ ५ ॥

रेवतीनक्षत्रमें "पूष्णो प्राश्येति" इसको पढकर फल और अक्षतकी आहुति देवे ॥ ५ ॥

अश्विनातेजसेत्यश्विन्यां गुडौदनं
जुहुयात् ॥ ६ ॥

अश्विनीनक्षत्रमें "अश्विना तेजसात्"—इस मंत्रको पढकर गुड और भातकी आहुति देवे ॥ ६ ॥

असि यम इति भरण्यां तण्डुलाञ्जु-
हुयात् ॥ ७ ॥

भरणी नक्षत्रमें "असि यम"—इस मंत्रको पढकर चावलोकी आहुति देवे ॥ ७ ॥

अग्निर्मूर्द्धा इति कृत्तिकासु घृतं जुहु-
यात् ॥ ८ ॥

कृत्तिकानक्षत्रमें "अग्निर्मूर्द्धा इति"—इस मंत्रको पढकर घृतकी आहुति देवे ॥ ८ ॥

हिरण्यगर्भ इति रोहिण्यां सर्वबी-
जानि जुहुयात् ॥ ९ ॥

रोहिणीनक्षत्रमें "हिरण्यगर्भ इति" इस मंत्रको पढकर सबबीजोंकी आहुति देवे ॥ ९ ॥

त्वम्भसामेति मृगाशिरसि पायसं जु-
हुयात् ॥ १० ॥

मृगाशिरानक्षत्रमें "त्वम्भसामेति"—इस मंत्रको पढकर खीरका आहुति देवे ॥ १० ॥

अहेपितुमरुतामित्यार्द्रायां कृसरां
हुनेत् ॥ ११ ॥

आर्द्रानक्षत्रमें "अहे पितुमरुतामिति"—इस मंत्रको पढकर खिचड़ीकी आहुति देवे ॥ ११ ॥

महीमूषमातरमिति पुनर्वसौ तण्डु-
लाञ्जुहुयात् ॥ १२ ॥

पुनर्वसुनक्षत्रमें "महीमूषमातरमिति"—इस मंत्रको पढकर चावलोकी आहुति देवे ॥ १२ ॥

बृहस्पते अतियदर्य्य इति पुष्ये घृत-
पायसं जुहुयात् ॥ १३ ॥

पुष्यनक्षत्रमें "बृहस्पते अतियदर्य्य इति"—इस मंत्रको पढकर घी मिलाकर खीरकी आहुति देवे ॥ १३ ॥

नमोऽस्तु सर्पेभ्यो इति आश्लेषासु
सर्वौषधीर्जुहुयात् ॥ १४ ॥

सर्वौषधिवर्ग ।

कृष्टं मांसी हरिद्रे द्वे सुरशैलेयप-
श्वकैः । वचाकचूरमुस्तैश्च सर्वौषधि-
कमुच्यते ॥ १ ॥

आश्लेषानक्षत्रमें “नमोस्तु सर्पेभ्यो इति”-इस
मंत्रको पढकर सर्वौषधि (कूठ, वालछट, हल्दी,
दारुहल्दी, देवदारु, भूरछरीला, वच, कचूर और
नागरमोथा इनको सर्वौषधि कहत ह) की आहुति
देवे ॥ १४ ॥

इदं पितृभ्य इति मद्यासु शालितण्डु-
लाञ्जुहुयात् ॥ १५ ॥

मयानक्षत्रमें “इदं पितृभ्य इति”-इस मंत्रको पढ-
कर शालिचावलोकी आहुति देवे ॥ १५ ॥

प्रातर्जितं भगमुप्रेति पूर्वाफाल्गुनी-
ष्वक्षताञ्जुहुयात् ॥ १६ ॥

पूर्वाफाल्गुनीनक्षत्रमें “प्रातर्जितं भगमुप्रेति”-इस-
मंत्रको पढकर अक्षतकी आहुति देवे ॥ १६ ॥

तत्सवितुर्वरेण्यमिति उत्तराफाल्गुनीषु
घृतं जुहुयात् ॥ १७ ॥

उत्तराफाल्गुनीनक्षत्रमें “तत्सवितुर्वरेण्यमिति”-
इस मंत्रको पढकर घृतकी आहुति देवे ॥ १७ ॥

आकृष्णनेति हस्ते रक्तपुष्पं जुहु-
यात् ॥ १८ ॥

हस्तनक्षत्रमें “आकृष्णनेति”-इस मंत्रको पढकर
लाल फूलोंकी आहुति देवे ॥ १८ ॥

देवस्य त्वा सवितुरिति चित्रायां मधु-
पायसं जुहुयात् ॥ १९ ॥

चित्रानक्षत्रमें “देवस्य त्वा सवितुरिति”-इस म-
त्रको पढकर गहद और खीरकी आहुति देवे ॥ १९ ॥

वायुरग्नेजा इति स्वातिषु तण्डुला-
ञ्जुहुयात् ॥ २० ॥

स्वातिनक्षत्रमें “वायुरग्नेजा इति”-इस मंत्रको
पढकर चावलोंकी आहुति देवे ॥ २० ॥

इन्द्राग्नि आगतमिति विशाखायां
यववृत्तं जुहुयात् ॥ २१ ॥

विशाखानक्षत्रमें “इन्द्राग्नि आगतमिति”-इस-
मंत्रको पढकर जौ और घीकी आहुति देवे ॥ २१ ॥

आनोमित्रो वरुणेति अनुराधासु म-
सूरं जुहुयात् ॥ २२ ॥

अनुराधानक्षत्रमें “आनोमित्रो वरुणेति”-इस
मंत्रको पढकर मसूरकी आहुति देवे ॥ २२ ॥

इन्द्रा सुत्रामेति ज्येष्ठासु कनकं तद-
भावे पीतपुष्पं जुहुयात् ॥ २३ ॥

ज्येष्ठानक्षत्रमें “इन्द्रासुत्रामेति”-इस मंत्रको पढ-
कर सुवर्णकी आहुति देवे और जो सुवर्ण न मिले तो
पीले फूलोंकी आहुति देवे ॥ २३ ॥

मूलाय स्वाहेति मूले तिलेब्रीह्याज्या-
नि जुहुयात् ॥ २४ ॥

मूलनक्षत्रमें “मूलायस्वाहेति”-इस मंत्रको पढ-
कर तिल और ब्रीहि धानोंकी आहुति देवे ॥ २४ ॥

अपाघमुपकिल्बिमिति पूर्वाषाढे
घृतौदनं जुहुयात् ॥ २५ ॥

पूर्वाषाढानक्षत्रमें “अपाघमुपकिल्बिमिति”-इस
मंत्रको पढकर घी और चावलोंकी आहुति देवे २५ ॥

विश्वेऽद्यमिति उत्तराषाढे मधुरान्नं
जुहुयात् ॥ २६ ॥

उत्तराषाढानक्षत्रमें “विश्वेऽद्यमिति”-इस मंत्रको
पढकर मधुर भोजनकी आहुति देवे ॥ २६ ॥

इदं विष्णुरिति श्रवणे मूर्वास्तदभावे
तण्डुलाञ्जुयात् ॥ २७ ॥

श्रवणनक्षत्रमें “इदं विष्णुरिति”-इस मंत्रको पढ-
कर मूर्वा औषधिकी आहुति देवे और जो मूर्वा न
मिले तो चावलोंकी आहुति देवे ॥ २७ ॥

उरंगवरुणरुद्रा वासवेन्द्रतिपूर्वा
यमभहुंतविशाखाः पापवारेण युक्ताः ।
तिथि नवमिषष्टीद्वादशीभिश्चतुर्थ्या-
मरणसहितयोगा रोगिणां मृत्युरेव
॥ ८३४ ॥

आश्लेषा, शतभिषा, आर्द्रा, धनिष्ठा, ज्येष्ठा,
पूर्वाभाद्रपदा, पूर्वाषाढा, पूर्वाफाल्गुनी, भरणी, कृ-
त्तिका और विशाखानक्षत्र ये पापवारोसे युक्त हो
एवं नवमी, पष्ठी, द्वादशी और चतुर्थी यह तिथि भी
हैं तो इसको मरण कहना अर्थात् इन योगोमे
उत्पन्न हुआ रोग रोगीके नाश करनेके लिये होता
है ॥ ८३४ ॥

पथ्यापथ्य ।

सज्वरो ज्वरमुक्तो वा विदग्धानि
गुरूणि वा । असात्मयान्यन्नपानानि
विरुद्धाध्यशनानि च ॥ ८३५ ॥
व्यायाममतिचेष्टां चाऽभ्यङ्गं स्नानं
विवर्जयेत् । तेन ज्वरः शमं याति
शान्तश्च न पुनर्भवेत् ॥ ८३६ ॥

ज्वरसहित या ज्वररहित मनुष्य विदग्ध अन्न
(दाहकारक भोजन) भारी पदार्थ, असात्म्य (जो
अपनी प्रकृतिके प्रतिकूल हो) अन्नपान, विरुद्ध
और अजीर्णमे भोजन, व्यायाम (दंडकसरत)
अत्यन्त चलना, फिरना, तैलादिका मर्दन और
स्नान ये सब छोड़ देवे । इस प्रकार करनेसे ज्वर शांत
होता है और शांत हुआ ज्वर फिर उत्पन्न नहीं होता
॥ ८३५ ॥ ८३६ ॥

व्यायामश्च व्यवायश्च स्नानं चक्रम-
णानि च । ज्वरमुक्तो न सेवेत याव-
न्नो बलवान्भवेत् ॥ ८३७ ॥

व्यायाम (दंडकसरत), व्यवाय (मैथुन),
स्नान और अधिक भ्रमण करना इन सबको ज्वर-
मुक्त मनुष्य जबतक बलवान् न हो जाय तबतक
न करे ॥ ८३७ ॥

वार्यमाणो दिवा स्वप्नभुक्त्वा यः सेवते

१ आश्लेषा । २ शतभिषा । ३ आर्द्रा । ४ धनिष्ठा ।
५ ज्येष्ठा । ६ भरणी । ७ कृत्तिका ।

नरः । तस्मात्तन्द्रा जडत्वश्च मोह-
श्चाप्युपजायते ॥ ८३८ ॥

ज्वरसे मुक्त हुए मनुष्यको भोजन करके दिनमें
सोना नहीं चाहिये, क्योंकि दिनमें शयन करनेसे
तन्द्रा जडता और मोह उत्पन्न होता है ॥ ८३८ ॥

न जातु तर्पयेत्प्राज्ञः सहसा ज्वरक-
शितम् । तेन संशमितोऽप्यस्य पुन-
रेव भवेज्ज्वरः ॥ ८३९ ॥

ज्वरसे कृग हुए मनुष्यको कदापि एकसाथ तर्पण
(तृप्तिकारक पदार्थ) न देवे, क्योंकि ज्वरसे छूटा
हुआ ज्वर फिर आजाता है ॥ ८३९ ॥

श्वासो मूर्च्छा रुचिश्छर्दिस्तृष्णाती-
सारविड्यहाः । हिक्काकासाङ्ग-
भेदाश्च ज्वरस्योपद्रवा दश ॥ ८४० ॥

श्वास, मूर्च्छा, अरुचि, वमन, तृषा, अतिसार
मलरोध, हिचकी, खोंसी और शरीरमे हड़फूटन ये
ज्वरके दश उपद्रव है ॥ ८४० ॥

हेतुभिर्बहुभिर्जातो वलिभिर्बहुलक्षणः ।
ज्वरः प्राणान्तकृद्यश्च शीघ्रमि-
न्द्रियनाशनः ॥ ८४१ ॥

बहुत कारणोसे उत्पन्न हुआ, बलवान्, बहुत
लक्षणोवाला और जो उत्पन्न होते ही एक किसी
इन्द्रियको नष्ट करदेवे उसको शीघ्र प्राणनाशक
जानना ॥ ८४१ ॥

ज्वरः क्षीणस्य शूनस्य गम्भीरो दैर्घ्य-
रात्रिकः । असाध्यो बलवान्यश्च
केशसीमन्तकृज्ज्वरः ॥ ८४२ ॥

जो ज्वर क्षीण मनुष्यके बहुत दिनोंसे उत्पन्न
हुआ हो तथा शरीरमे सूजन आ गई हो, ज्वरबलवान्
हो और रोगीके शिरपर वालोकी मांगसी गुंथ जावै,
उसको असाध्य जानना ॥ ८४२ ॥

विसंज्ञस्ताम्यते यस्तु शेते निपति-
तोऽपि वा । शीतादितोऽतरुष्णश्च
ज्वरेण म्रियते नरः ॥ ८४३ ॥

जो मनुष्य ज्वरसे व्याकुल होकर बेहोश हो जावै,
जिससे सोकर और बैठकर उठा न जाय तथा जिसको

वाहरो नदी लगे और भीतर दाह हो वह रोगी अवश्य चक्रे द्वारा मृत्युको प्राप्त होता है ॥ ८४३ ॥

यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो हृदि सङ्घात-
गूलवान् । वक्त्रेण चैवोच्छ्वसिति तं
ज्वरो इति मानवम् ॥ ८४४ ॥

जिस ज्वररोगीक न्ये खडे रहें, आंखें लाल हो, हृदयमें संघातके समान पीडा और ऊंचे मुखसे श्वास लेवे वह ज्वररोगी मर जाता है ॥ ८४४ ॥

द्विकाश्वासनृषायुक्तं मूढं विभ्रान्त-
लोचनम् । सन्ततोच्छ्वसितं क्षीणं नरं
क्षपयति ज्वरः ॥ ८४५ ॥

जो ज्वररोगी द्विकी, श्वास और नृषासं युक्त हो, मूढ हो, नेत्र विभ्रान्त (चपल) हो जायें, निरन्तर श्वास लेवे और क्षीण हो जाय वह पुरुष मर जाता है ॥ ८४५ ॥

हतप्रभेन्द्रियं क्षाममरोचकनिपीडि-
तम् । गम्भीरतीक्ष्णवेगार्तं ज्वरितं
परिवर्जयेत् ॥ ८४६ ॥

त्रिमकी क्रांति (शरीरकी जोभा) नष्ट हो गई हो, श्न्द्रिये अपने २ कार्य करनेमें असमर्थ हो अन्नमें अन्यन्त अनधि हो, ज्वर तीक्ष्ण और उसका वेग गम्भीर हो ऐसे ज्वररोगीको वैद्य न्याग दे ॥ ८४६ ॥

अरोचके गात्रमादे वैद्यर्णोऽङ्गमला-
दिषु । शान्तज्वरोऽपि शोध्यः स्या-
दनुबन्धभयात्तरः ॥ ८४७ ॥

ज्वरके शान्त होनेपर भी यदि अरुधि, शरीरमें न्यासि, अंग और मलादिमें विवर्णता ये लक्षण हो तो ज्वरके अनुबन्धके भयमें फिर वसन विरचनादिसे नृषा प्रस्ता चाहिये ॥ ८४७ ॥

बलवान्मवेदोषु ज्वरः साध्योऽनुष-
ट्ठवः ॥ ८४८ ॥

रोगी बलवान् हो और ज्वर उपद्रव रहित हो तो साध्य मानने ॥ ८४८ ॥

ज्वरे तुल्यतुदोषत्वं प्रमेहे तुल्यदुष्टता ।
रक्तगुल्मे पुराणत्वं मुखसाध्यस्य
लक्षणम् ॥ ८४९ ॥

ज्वरमें ऋतुके अनुसार दोषोंकी तुल्यता होनेसे साध्य होता है । प्रमेहमें दोषोंकी वृध्यता समान होनेसे साध्य होता है । और रक्तगुल्म पुराना होनेसे मुखसाध्य होता है ॥ ८४९ ॥

दाहः स्वेदो भ्रमस्तृष्णा कम्पो विडु-
भेदसंजिता । कूजनं चातिवेगान्ध्य-
माकृतिर्ज्वरमोक्षणे ॥ ८५० ॥

दाह, पसीनेका आना, भ्रम, तृष्णा, कम्प और मलका भेद, शरीरका कूजना और दुर्गन्धका होना ये लक्षण ज्वरमुक्त होनेसे पहले होते हैं ॥ ८५० ॥

अन्यच्च ।

स्वेदो लघुत्वं शिरसः कण्डूः पाको
मुखस्य च । क्षवथुश्चात्रलिप्सा च
ज्वरमुक्तस्य लक्षणम् ॥ ८५१ ॥

पसीनेका आना, शरीरमें हल्कापन आना, शिरसं खुजलीका चलना, मुखका पकना, छींकका आना, और भोजनमें रुचिका होना, ये सब ज्वरमुक्त होनेके लक्षण जानने ॥ ८५१ ॥

वेदो लघुर्व्यपगतकृममोहतापः पाको
मुखे करणसोष्ठवमव्यथत्वम् । स्वेदं
क्षवः प्रकृतियोगिमनोऽत्रलिप्सा
कण्डूश्च सूक्ष्मं विगतज्वरलक्षणा-
नि ॥ ८५२ ॥

शरीर हल्का हो, ग्लानि और सन्ताप इनका दूर होना, मुखका पकना, कर्णेन्द्रिय स्पष्ट श्रवण करने लगे, सब शरीरकी पीडा दूर हो, पसीने का आना, प्रकृतिके अनुसार छींकका आना, अन्नमें रुचि और शिरसं खुजलीका चलना, ये सब लक्षण ज्वरमुक्त होनेके हैं ॥ ८५२ ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां ज्वराधिकारः ।

अथातिसाराधिकार ।

अतिसारनिदान ।

गुर्वतिस्निग्धरूक्षोष्णद्रवस्थूलाति-
शीतलैः । विरुद्धाध्यशनाजीर्णैर-
सात्म्यैश्चापि भोजनैः ॥ १ ॥ स्नेहा-
द्यैरतियुक्तैश्च मिथ्यायुक्तैर्विषैर्भयैः ।
शोकदुष्टाम्बुमद्यातिपानैः सात्म्य-
तुपर्ययैः ॥ २ ॥ जलाभिरमणैर्वेगवि-
घातैः कृमिदोषतः । नृणां भवत्य-
तीसारो लक्षणं तस्य वक्ष्यते ॥ ३ ॥

अत्यंत भारी, अत्यन्त चिकने, रुख, गरम,
अत्यंत पतले, स्थूल (कठिन), अत्यन्त शीतल,
विरुद्ध (संयोगविरुद्ध, स्वभावविरुद्ध, देशविरुद्ध,
समय विरुद्ध), अध्यशन (भोजनपर भोजन) एवं
भोजनकी अजीर्ण अवस्थामे भोजन करनेसे अथवा
कच्चे पदार्थोंको भक्षण करनेसे, प्रकृतिके विपरीत
भोजन करनेसे, स्नेहादि कर्मोंको अधिक करनेसे
अथवा कुविधिसे करनेसे, विपको भक्षण करनेसे,
भयसे, अत्यंत शोकसे, दुष्टजलको पान करनेसे,
अत्यंत मटिरा पीनेसे, स्वभावके विरुद्ध और क्रतुके
विरुद्ध आहार विहारदि करनेसे, अधिक जलमे
क्रीडा करनेसे, मलमूत्रादिके वेगोंको रोकनेसे और
पेटमे कृमि होजानेसे मनुष्योंको अतिसार रोग उत्पन्न
होता है । अब उसके लक्षण कहता हूँ ॥ १-३ ॥

अतिसारकी सम्प्राप्ति ।

संशम्यापां धातुरग्निं प्रवृद्धं वर्चो-
मिश्रो वायुनाधः प्रणुन्नः । सरत्यती-
वातिसारं तमाहुर्व्याधिं घोरं षड्वि-
धं तं वदन्ति ॥ ४ ॥ एकैकशः सर्वश-
श्चापि दोषैः शोक्नान्यः षष्ठ आमेन
चोक्तः ॥ ५ ॥

उपर्युक्त कुपश्चादि सेवन करनेसे, अपांघातु (रस,
जल, रधिर, मूत्रादि) उदरकी अत्यन्त बढी हुई अग्नि
को मंद करके मलके साथ मिलकर अपानवायुसे

प्रेरित होकर नदीके वेगके समान गुदाके द्वारा
निकलती है, इस कारण इसको अतिसार कहते
इस दारुणरोगको छ प्रकारका कहा है, जैसे
वातातीसार पित्तातीसार कफातीसार सन्निपाताती-
सार शोकातीसार और आमातीसार ॥ ४ ॥ ५ ॥

अतिसारका पूर्वरूप ।

हन्नाभिपायूदरकुक्षितोद्गात्रावसादा-
निलसन्निरोधाः । विट्सङ्ग आध्मान
मथाविपाको भविष्यतस्तस्यपुरः
सराणि ॥ ६ ॥

हृदय, नाभि, गुदा, उदर और कोख इनमे तोड़ने
सरीखी पीड़ा, शरीरमे अप्रसन्नता, अपानवायुका
अवरोध, मलका रुकना, अफारेका होना और भोजन-
का न पचना, ये अतिसारके पूर्वलक्षण है ॥ ६ ॥

चिकित्सा ।

हितं लङ्घनमेवादौ पूर्वरूपेषु देहिनः ।
कार्यश्चानशनस्यान्ते सद्रवं लघुभो-
जनम् ॥ ७ ॥

अतीसारके पूर्वरूपमे रोगीको प्रथम लंघन करने
अत्यंत हितकारी है, जब लंघन हो चुके तब पतले
और हलके पदार्थोंका भोजन करावे ॥ ७ ॥

विश्वोदीच्योदकं पानं लङ्घनं चास्य
शस्यते । हरिद्रादिं वचादिं वा पिबे-
द्यामेषु मानवः ॥ ८ ॥

प्रथम लङ्घन करना, पश्चात् सोठ और सुगन्धवाला
इनके काथको एवं हरिद्रादि अथवा वचादि औषधि-
योंके काथको पान करना चाहिये । ये सब आमयुक्त
अतिसारमे हितकारक है ॥ ८ ॥

खण्डयूष ।

खंडयूषयवागूमिः पिप्पल्यादि प्रयो-
जयेत् । मुद्गयूषरसं तक्रं धान्यजीरव-
संयुतम् । खंडयूषमिति प्रोक्तं सैन्ध-
वेन समन्वितम् ॥ ९ ॥ अत्रिसन्दी-
पनं प्रोक्तं ग्रहणीदोषनाशनम् । अरो-
चके ज्वरे चैव श्रेष्ठमेतत्प्रवाहिके ॥ १० ॥

खंडयूष, ववागू और पिप्पल्यादि औषधियोंका
काथ ये सब सेवन कराने चाहिये । मूंगका दूध, रस

तक्र, धनि, जीरा और सेधानोन इन सबको एकत्र मिलानेसे खंडयूप सिद्ध होता है । यह खंडयूप अग्नि-को दीपन करता, संग्रहणीको नष्ट करता तथा अरुचि ज्वर और प्रवाहिकारोगमें अत्यन्त हितकारक है ॥ ९ ॥ १० ॥

षडंगयूप ।

विल्वं सधान्यञ्च सजीरकञ्च पाठा च
शुण्ठी तिलसंयुता च । पिष्ट्वा षडङ्गः
सुकृतो नराणां यूषो ह्यतीसारहरः
प्रदिष्टः ॥ ११ ॥

वेलगिरी, धनियाँ, जीरा, पाठ, सोठ और तिल इनको एकत्र पीसकर यूप बनावे । यह षडंगयूप, अति सारको हरनेवाला है ॥ ११ ॥

तृष्णापनयनी लघ्वी दीपनी वस्ति
शोधनी । ज्वरे चैवातिसारे च यवागूः
सर्वदा हिता ॥ १२ ॥

यवागू-तृपाको शांत करती है । एवं हलकी, अग्नि-को दीपन करनेवाली, वस्तिशोधक तथा ज्वर और अतिसारमें सदैव हितकारी है ॥ १२ ॥

आमपक्कमं हित्वा नातिसारे क्रिया
हिता । अतः सर्वातिसारेषु ज्ञेयं
पक्कामलक्षणम् ॥ १३ ॥

आमको पक्क करनेवाली क्रियाके सिवा इनको आतिसार रोगमें अन्य क्रिया हितकारी नहीं है इस कारण सब प्रकारके अतिसारमें आम पक्क हुई है या नहीं यह जानना चाहिये ॥ १३ ॥

आमपाचनविधि ।

संसृष्टमामदोषैस्तु न्यस्तमाश्वसीदति
॥ पुरीषं भृशदुर्गन्धि पिच्छलं चामसं-
ज्ञितम् ॥ १४ ॥ एतान्येव तु लिङ्गानि
विपरीतानि यस्य वै । लाघवञ्च
विशेषेण तस्य पक्कं विनिर्दिशेत् १५ ॥

आमदोषयुक्त मल जलमें डालनेसे शीघ्र डूब जाता है वा अन्यत दुर्गन्धित और पिच्छल होता है उसको आम कहते हैं । जो इससे विपरीत लक्षणो युक्त हो अर्थात् जिससे दुर्गन्धि न हो, पिच्छल न हो और विशेष कर हलका हो अर्थात् जलमें डालनेसे न डूबे उसको पक्कमल जानना चाहिये ॥ १४ ॥ १५ ॥

न तु संग्रहणं दद्यात्पूर्वमामातिमा-
रिणे। दोषा ह्यादौ वध्यमाना जनयन्त्या-
मयान्वहून् ॥ १६ ॥ शोथपाण्ड्यामय-
प्लीहकुष्ठगुल्मोदरज्वरान् । दण्डका-
लसकाधमानग्रहण्यशौगदास्नथा ॥ १७ ॥

आमातिसारमें रोगीको प्रथम कदापि मग्राहक मल रोधक) औषधि न देवे क्यों कि, प्रथम ही मलरोधक औषधि देने से दोष बढ़ होकर मृजन, पाण्डुरोग, पीडा, कुष्ठ, गुल्म, उदररोग, ज्वररोग, दण्डक, अलसका आध्मान, संग्रहणी और दवात्रीर आदि अनेकों रोगोंको उत्पन्न करते हैं ॥ १६ ॥ १७ ॥

डिम्भो यः स्थविरो वापि वातपि-
त्तात्मकश्च यः । क्षीणधातुवलार्त्तस्य
बहुदोषोऽतिविश्रुतः ॥ १८ ॥ आ-
मोऽपि स्तम्भनीयः स्यात्पाचनान्भरणं
व्रजेत् ॥ १९ ॥ स्तोत्रं स्तोत्रं विवृद्धं
वा सशूलं योऽनिसार्यते । अभया-
पिप्पलीकलके सुखोष्णेस्तं विरेचयेत् २० ॥

किन्तु बालक, वृद्ध और जिसकी प्रकृति वात पित्तकी हो, बलहीन, धातुक्षीण और जिसको बहुत दस्त होचुके हो ऐसे आमातिसारवाले रोगीको मल-रोधक औषधि देवे । पाचन औषधि कदापि न देवे कारण कि, आमके पचनेसे रोगी दुर्बल होकर मृत्यु-को प्राप्त होता है । थोडा २ या बहुत शूलयुक्त मल उतरे तब उसको हरड और पीपलके कल्कको किचित् उष्णजलके साथ पिलाकर दस्त करावे १८ १९ २० ॥

दीप्ताग्निर्बहुदोषश्च विबन्धमनिसार्यते ।
विडङ्गत्रिफलाकृष्णाकषायैस्तं विरे-
चयेत् ॥ २१ ॥

जिसकी अग्नि दीपन हो और बहुतसे दोषोंके साथ विबन्ध कब्जसे मल उतरे उसको वायविडंग, त्रिफला और पीपल इनके काथको पिलाकर विरेचन करावे २१

क्षुत्क्षामस्य विरेके तु पेयां युञ्ज्याद्वि-
चक्षणः । भेषजैर्मारुतत्रैश्च दीपनीयैश्च
कल्पिताम् ॥ २२ ॥

जिसके क्षुधाकी पीडासे दस्त होते हो उसको वातनाशक और अग्निप्रदीपक औषधियोंके द्वारा सिद्धकी हुई पेया देवे ॥ २२ ॥

योऽतिद्रवं प्रभूतञ्च पुरीषमतिसार्यते ।
नस्यादौ वमनं योज्यं पश्चाल्लङ्घन-
मेव च ॥ २३ ॥

जिस रोगीके अत्यन्त पतले और बहुतसे दस्त होते हो उसको प्रथम वमन, पश्चान् लङ्घन कराने चाहिये ॥ २३ ॥

शूलानाहप्रसेकार्तं वामयेदतिसारि-
णम् । पिप्पलीलवणाभ्याञ्च साधि-
तेन जलेन वा ॥ २४ ॥

शूल, आनाह और अतिसारवाले रोगीको पीपल और नमकका पानी बनाकर पिलावे उसके द्वारा उत्तम वमन हो जाती है ॥ २४ ॥

द्वितीय आमपाचनविधि ।

पथ्यादारुवचामुस्तैर्नागरातिविषा-
न्वितैः । आमातिसारनाशाय काथ-
मेभिः पिबेन्नरः ॥ २५ ॥

हरड, देवदारु, वच, नागरमोथा, सोठ और अतीस इनका काथ बनाकर अमातीसार नष्ट करनेके लिये पान करे ॥ २५ ॥

पाठहिंज्वजमोदोश्रापञ्चकोलाब्दजं
रजः । उष्णाम्बुपीतं सरुजं जयत्यामं
ससैन्धवम् ॥ २६ ॥

पाठ, हींग, अजमोद, वच, पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, सोठ और नागरमोथा इनको एकत्र पीसकर सैधेनेनसे मिलाकर गरम जलके साथ पान करे । इससे पीडायुक्त दोष नष्ट होता है ॥ २६ ॥

० त्र्यूषणातिविषाहिङ्गुर्वचासौर्वर्चला-
भया । पीतोष्णेनाम्भसा जह्या-
दामातीसारमुद्धतम् ॥ २७ ॥

त्रिकुटा, अतीस, हींग, वच, कालानोन और हरड इनका चूर्ण उष्णजलके साथ पान करनेसे प्रबल आमा तीसार नष्ट होता है ॥ २७ ॥

वचा बिल्वकणा विश्वाकुलकं कृष्टदी-
प्यकम् । सविडङ्गं जयेत्पीतमामु-
ष्णांबुनां शृतम् ॥ २८ ॥

वच, बेलगिरी, पीपल, सोठ, पटोटपत्र, कूट, अजमोद और वायविडग इन सबको एकत्र पीसकर

गरम जलके साथ पान करे । इससे आम परिपक्व होती है ॥ २८ ॥

० हरीतकी सातिविषा हिङ्गुसौर्वर्चलं
वचा । सैन्धवं चेति पिष्टानि पायये-
दुष्णवारिणा । आमातिसारयोगोऽयं
पाचयित्वा चिकित्सति ॥ २९ ॥

हरड, अतीस, हींग, कालानोन, वच और सैधा-
नोन इन सबको एकत्र पीसकर गरम जलके साथ पान करनेसे आम दोष पचता है । यह अत्युत्तम योग है ॥ २९ ॥

आमातिसारो योगेन यद्येतेन न
शाम्यति । न तं योगशतेनापि
चिकित्सति चिकित्सकः ॥ ३० ॥

जो इस योगसे आमातीसार नष्ट न हो तो सैक-
डे योगोस भी नष्ट नहीं होगा ॥ ३० ॥

एरण्डरससंपिष्टं पक्वमामञ्च नाग-
रम् । आमातिसारशूलघ्नं दीपनं
पाचनं तथा ॥ ३१ ॥

कच्ची ओर मुनी हुई सोठको अंडके रसमें पीस-
कर भक्षण करे । यह योग आमातीसार और शूल को नष्ट करता है दीपन और पाचन है ॥ ३१ ॥

चित्रकं पिप्पकामूलं वचा कटुकरो-
हिणी । पाठावत्सकबीजानि हरी-
तक्यो महौषधम् ॥ ३२ ॥ एतदाम-
समुत्थानमतीसारं सवेदनम् । कफा-
त्मकं सपित्तञ्च सवातं हन्ति
वै ध्रुवम् ॥ ३३ ॥

चीता, पीपलामूल, वच, कुटकी, पाठ, इन्द्रजा,
हरड और सोठ इनका काथ वेदनायुक्त आमातीसार,
कफातीसार, पित्तातीसार और वातातीसारको निश्चय
नष्ट करता है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

श्वदंष्ट्रैरण्डधान्याम्लयवपुष्करसाधि-
ता । पथ्या मधुयुता लीढा शूल-
श्रन्थिविनाशिनी ॥ ३४ ॥

गोखर, अंडकी जड़, धनियां, इन्द्र और पोहकर-मूल. इन सबको एकत्र पीसकर जौकी कांजीमे मिलाकर सेवन करे। अथवा हरडको शहदमे मिलाकर भक्षण करे तो शूल और ग्रंथियुक्त आम नष्ट होती है ॥ ३४ ॥

नागरातिविषामुस्तेः काथः स्यादा-
मपाचनः ॥ ३५ ॥

सोठ, अतीस और नागरमोथा इनका काथ आम को पचाला है ॥ ३५ ॥

विल्वं मोचरसं पाठा गुडूची विश्व-
मुस्तकम् । गुडतक्रेण दुर्वारं पीतं ह-
न्त्युदरायमम् ॥ ३६ ॥

वेलगिरी, मोचरस, पाठ, गिलोय, सोठ और नागरमोथा इनके काथमे गुड़ और तक्र मिलाकर पान करनेसे दुस्तर अतीसारादि उदर रोग नष्ट होते हैं ॥ ३६ ॥

धान्यपञ्चक ।

० धान्यनागरमुस्तश्च बालकं विल्वमेव
च । आमशूलविवन्धघ्नं पाचनं वृद्धि-
दीपनम् ॥ ३७ ॥ पित्ते धान्यचतुष्कश्च
शुण्ठीत्यागाद्द्रवन्ति हि ।

धनियां, सोठ, नागरमोथा, सुगन्धवाला और वेलगिरी इनका काथ आम शूल और विवन्धको नष्ट करता है एवं पाचन और अग्निप्रदीपक है ॥ ३७ ॥ यदि पित्तातीसारमें इसको देना हो तो इसमेसे सोठको निकाल और धनियां यथानुरूप बढा देवे ।

देवदारुवचासुस्तनागरातिविषाम-
याः । सर्वाजीर्णप्रशमनं पेयमेतैः
शृतं जलम् ॥ ३८ ॥

देवदारु, वच, नागरमोथा, सोठ, अतीस और हरड इनका काथ सबप्रकारके अजीर्ण रोगको नष्ट करता है ॥ ३८ ॥

नागरातिविषामुस्तैरथवा धान्यना-
गरैः । तृष्णाशूलातिसारघ्नं रोचनं
दीपनं लघु ॥ ३९ ॥

सोठ, अतीस और नागरमोथा अथवा धनियां और सोठ इनका काथ तृष्णा, शूल और अतीसारको नष्ट करता है तथा रोचन, दीपन और हलका है ॥ ३९ ॥

धान्यकातिविषोदीच्ययवानीमुस्त-
नागरैः । वलाद्विपर्णाविल्वश्च दद्याद्दी-
पनपाचने ॥ ४० ॥

धनियां, अतीस, सुगन्धवाला, अजवायन, नागरमोथा सोठ, खिरैटी, शालपर्णी, पृष्पर्णी और वेलगिरी इनका काथ देवे । यह दीपन और पाचन है ॥ ४० ॥

चतुःसमा गुटी ।

अभया नागरं मुस्तं गुडेन सह यो-
जितम् । चतुःसमेयं गुटिका त्रिदो-
षघ्नी प्रकीर्तिता ॥ ४१ ॥ आमाति-
सारमानाहं सविवन्धं विपूचिकाम् ।
कृमिनरोचकं हन्यादीपयत्याशु चा-
नलम् ॥ ४२ ॥

हरड, सोठ और नागरमोथा इन सबको समान भाग लेकर एकत्र पीसकर गुडमे मिलाकर गोली बनावे, यह गुटिका त्रिदोषनाशक है तथा आमातीसार, आनाह, विवन्ध, विपूचिका, कृमिरोग और अरुचिको नष्ट कर अग्निको शीघ्र दीपन करती ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

दलोत्थः स्वरसः पेयो हिजलस्य स-
माक्षिकः । जयत्याममतीसारं काथो
वा कुटजत्वचः ॥ ४३ ॥

हिजल (समुद्रफल) वृक्षके पत्तोंके स्वरसमे शहद मिलाकर अथवा कुडकी छालके काथमे शहद मिला कर सेवन करनेसे आमातीसार नष्ट होता है ॥ ४३ ॥

पयस्युत्काथय मुस्तानां विंशतिं
त्रिगुणेषुम्भसि । क्षीरावशिष्टं तत्पीतं
हन्त्यामं शूलमेव च ॥ ४४ ॥

दूध १ भाग, नागरमोथे २० और जल ३ भाग लेकर सबको औटो । जब पकाकर केवल दूध ही बाकी रहजाय तब उतारकर पान करे । यह काथ आम और शूलको नष्ट करता है ॥ ४४ ॥

काञ्जिकहरीतकी ।

एण्डमूलैः सकणैरारनाले विमिश्रिते सयवैः । स्वित्रां खादेद्भयामामातीसारशूलार्तः ॥ ४५ ॥

अंडकी जड़ और पीपल इनको पीसकर जौकी कांजीमे मिलाकर उसमे हरड़ डालकर पकावे जब वह सीज जाय तब उस हरड़को सेवन करे तो इससे आमातीसार और शूल नष्ट होता है ॥ ४५ ॥

केशराजसुनिषण्णकञ्चटं दाडिमस्य फलमर्जुनोद्भवम् । काथ एष परिशीलितो नृणां हन्ति साममथ शूलमद्भुतम् ॥ ४६ ॥

काला भोंगरा, गिरीयारी, जलपीपल या चौलाई, अनारके छिलके और अर्जुनकी छाल इनका काथ सेवन करनेसे आमशूल नष्ट होता है ॥ ४६ ॥

कलिङ्गादि चूर्ण ।

कलिङ्गातिविषाहिङ्गुपथ्यासौवर्चलं वचा । शूलस्तम्भविबन्धघ्नं पेयं दीपनपाचनम् ॥ ४७ ॥

कुडेकी छाल, अतीस, हींग, हरड़, कालानोन और वच इनका काथ दीपन और पाचन है तथा शूलस्तम्भ और विबन्धको नष्ट करता है ॥ ४७ ॥

स्विन्नाम्लविल्वयवगोक्षुरकोरुद्रकच्छिन्नोद्भवा तुषजलैर्मधुनावलीढा । बद्धाल्पविट्कमतिसारमसृग्विमिश्रमामातिसारमपि हन्ति हरीतकीयम् ॥ ४८ ॥

कांजी, वेलगिरी, जौ, गोखरू, अंडकी छाल और गिलोय इनके काथमे हरड़ डालकर सिजावै, पश्चात् उसको शहदमे मिलाकर कांजीके साथ सेवन करे । यह हरड़—मलकी वद्धता, मलका अल्पता, रक्तातीसार और आमातीसारको नष्ट करती है ॥ ४८ ॥

निरामरूपं शूलार्तं लङ्घनाद्यैश्च कश्चितम् । नरं रूक्षमवेक्ष्याग्निं सक्षारं पाययेद्घृतम् ॥ ४९ ॥

कामराहत शूलरोगको जो लंघन करनेसे कृश हो गया हो तथा रुखे शरीरवाला हो तो उसकी अग्निके वलावलको विचारकर क्षार (जवाखारादि) के साथ घृतको पान करावे ॥ ४९ ॥

चांगेरीघृ

क्षारनागरचाङ्गेरीकोलदध्यम्लसाधितम् । सर्पिःपक्वं पिबेद्वापि शूलसारशान्तये । शुण्ठीक्षारसकलकाभ्यां विशिष्टं द्रव्यमिष्यते ॥ ५० ॥

जवाखार, सोठ, चांगेरी (अम्ल नोनिया), बेरका क्वाथ, दहा, कांजी और घी इनमे सोठ और जवाखारके कल्कको डालकर घृतको सिद्ध करे । यह घृत—शूलातीसारको शमन करता है ॥ ५० ॥

इति आमातिसार ।

अरलत्वक् प्रियङ्गुश्च मधुकं दाडिमाङ्कुरान् । अवाप्य पिष्ट्वा विपचेद्यवागूं दधि तां पिबेत् । एषा सर्वानतीसारान्हन्ति पक्वानसंशयः ॥ ५१ ॥

श्यानाककी छाल, फूलप्रियंगु, मुलैठी और अनारके अकुर इनको एकत्र जलमे पीसकर यवागू सिद्ध करे । इसको दहीमे मिलाकर पानसे सब प्रकारके पकातीसारको नष्ट करती है ॥ ५१ ॥

सलोध्रं धातकीविल्व मुस्ताम्रास्थिकलिङ्गकम् । पिबेन्माहिषतक्रेण पक्कातीसारनाशनम् ॥ ५२ ॥

लोध, धायके फूल, वेलगिरी, नागरमोथा, आमकी गुठली और इन्द्रजौ इनको एकत्र पीसकर भैसके तकके साथ सेवन करे तो पकातीसार नष्ट होता है ५२

अम्बष्ठाधातकीलोध्रसमङ्गापन्नकेसरम् । मधुकाऽरलुविल्वश्च पक्कातीसारहा गणः ॥ ५३ ॥

पाठ, धायके फूल, लोध, लज्जावंती, कमलफेशर, मुलैठा, श्यानाक और वेलगिरी इन सब औषधियोंका गण पकातिसारनाशक है ॥ ५३ ॥

पद्मं समझा मधुकं बिल्वं जम्बु सला-
टुकम् । पिबेत्तण्डुलतोयेन सक्षौ-
द्रमगदंकरम् ॥ ५४ ॥

कमल, लज्जावन्ती, मुलैठी, बेलगिरी और कच्ची
जामुन इनको चावलोके जलके साथ पीसकर गहद
मिलाकर पान करनेसे अतीसाररोगी निरोगी हो
जाता है ॥ ५४ ॥

पक्कातिसारिणे देयो मुस्ताकाथः
समाक्षिकः ॥ ५५ ॥

नागरसोथके काथमे गहद मिलाकर पक्कातीसारम
द्वे ॥ ५५ ॥

समझादिचूर्ण ।

समझा धातुकीपुष्पं मञ्जिष्ठा लोध्र-
मेव च । शाल्मलीविष्टकं लोध्रवृक्षदा-
डिमयोस्त्वचौ ॥ ५६ ॥ आम्रास्थि-
मध्यं लोध्रश्च बिल्वमध्यं प्रियङ्गु च ।
मधुकं शृङ्गवेरश्च दीर्घवृन्तत्वगेव च ॥
॥ ५७ ॥ चत्वार एते योगाः स्युः
पित्तातीसारनाशनाः । उक्ता य उप-
योल्यास्तु सक्षौद्रास्तण्डुलाम्बुना
॥ ५८ ॥

लज्जावन्ती, धायके फूल, मजीठ और लोध
अथवा सेमलका गोद (मोचरस) लोध और अनार-
की बकल किंवा आमकी गुठलीकी मींग लोध
बेलगिरी और फूलप्रियंगू या मुलैठी, सोठ और
झोनाककी छाल इन चारो योगोका चूर्ण पित्तातीसार-
नाशक है, इनमेसे किसी एकके चूर्णको चावलोके जल-
के साथ गहद मिलाकर पान करना चाहिये
॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥

पिष्टा तु दीर्घवृन्तत्वङ्महोषधसमन्वि-
ता ॥ पीना तण्डुलतोयेन पक्कातीसा-
रनाशिनी ॥ ५९ ॥

झोनाककी छाल और रौंठको पीसकर चावलो-
के जलके साथ सेवन करनेसे पक्कातिसार नष्ट होता
है ॥ ५९ ॥

पथ्याजाजीदुरालम्भावोटाफलसम-
न्वितः । स्वरसोऽप्यथवा कल्कः
पक्कातीसारनाशनः ॥ ६० ॥

हरड, जीरा, धमासा और बेर (किसीके मतसे
सुपारी) इनका काथ अथवा कल्क पक्कातिमारना-
शक है ॥ ६० ॥

नवचृतस्य पर्णानि कापित्यफलमेव
च । पिष्ट्वा तण्डुलतोयेन पक्कातीसा-
रशान्तये ॥ ६१ ॥

आमके कोमल पत्ते और कैथके गुडका चाव-
लोके जलमे पीसकर सेवन करनेसे पक्कातिसार नष्ट
होता है ॥ ६१ ॥

कुटजं बह्निचूर्णञ्च मधुना सह लेहये-
त् । चिरोत्थितमतीसारं पक्कं पित्तास्र-
जं जयेत् ॥ ६२ ॥

इन्द्रजौ और चीतेके चूर्णको गहदके साथ चाटे
तो बहुत दिनेका अतीसार, रक्तातिसार और पित्ता-
तिसार नष्ट होता है ॥ ६२ ॥

पक्कः शकृदतीसारो ग्रहणी मार्दवा-
ठयता । प्रवर्तते यदा कार्ग्यः क्षिप्रं
सांग्राहिको विधिः ॥ ६३ ॥

जब अतीसारमे मल पकजाय और ग्रहणी कलामें
मृदुता होकर मलकी प्रवृत्ति हो तो शत्रि मलरोधक
औपधि देनी उचित है ॥ ६३ ॥

कञ्चटजम्बूदाडिमश्टङ्गाटकपत्रबिल्व-
ह्विविरम् । जलधरनागरसहितं गङ्गा-
मपि वाहिनीं रुन्ध्यात् ॥ ६४ ॥

जलपीपल, जामुन, अनार, सिघाडेके पत्ते, बेल-
गिरी, सुगन्धवाला, नागरसोथा और सोठ इनका
काथ गंगाके समान वेगवाले अतीसारको भी नष्ट
कर देता है ॥ ६४ ॥

मोचरसमुस्तानागरपाठाशालूक-
धातकीकुसुमैः । चूर्णं मथितसमेतं
रुणद्धि गङ्गाप्रवाहमपि ॥ ६५ ॥

मोचरस, नागरसोथा, सोठ, पाद, कमलकंद और
धायके फूल इनके चूर्णको तक्रके साथ सेवन करनेसे
गंगाके समान वेगवाला अतीसार भी नष्ट होता है
॥ ६५ ॥

मुस्तावत्सकविजं मोचरसं बिल्वधा-
तकी लोधम् । गुडमथितसंप्रयुक्तं ग-
ङ्गामपि वेगवाहिनीं रुन्ध्यात् ॥ ६६ ॥

नागरमोथा, इन्द्रजौ, मोचरस, बेलगिरी, धाकके फूल और लोध इनके चूर्णको तक्र और गुड़के साथ सेवन करे तो गङ्गाके समान प्रवाहवाले दस्त भी बन्द हो जाते हैं ॥ ६६ ॥

**अङ्कोटमूलकल्कः सक्षौद्रस्तण्डुला-
म्बुना पीतः । सेतुरिव सरिद्रेगं झ-
टिति निरुन्ध्यादतीसारम् ॥ ६७ ॥**

अंकोलके कीचडके कल्कको चावलोके जलके साथ जहड़ डाल कर पीनेसे जिस प्रकार नदीके वेगको पुल रोक देता है उसी प्रकार यह अतीसारको तत्काल रोक देता है ॥ ६७ ॥

**कृत्वालवालं सुदृढं पिष्टैरामलकैर्भि-
षक् । आर्द्रकस्वरसेनाशु पूरयेन्नाभि-
मण्डलम् ॥ ६८ ॥ नदीवेगोपमं घोरं
प्रवृद्धं दुर्द्धरं नृणाम् । सद्योऽतीसारम-
जयं नाशयत्येष योगराट् ॥ ६९ ॥**

आमलोको जलमे गाढ़ा पीसकर लुगदी बनावे, फिर उस रोगीकी नाभिके चारो ओर गाढ़ा गाढ़ा लेप करके थामलासा बनादेवे जव सूखजावे तव नाभि-मण्डलको अदरखके रससे भर देवे । यह योगराज-नदीके वेगके समान घोर दुर्द्धर और अत्यन्त बड़े हुए अतीसारको तत्काल रोक देता है ॥ ६८ ॥ ६९ ॥

**सौवीरपिष्टः सहकारकल्को नाभि-
प्रलेपादतिसारहन्ता ॥ ७० ॥**

कच्चे आमको सौवीरनामक काँजीमे पीसकर नाभि-मण्डलपर प्रलेप करनेसे अतीसार रोग नष्ट होता है ७०
**अरुणं फेनिलं रूक्षमल्पमल्पं मुहुर्मु-
हुः । शकृदामं सरुक् शब्दं मारुते-
नातिसार्यते ॥ ७१ ॥**

वातातिसारमे--मल छाल, झागोदार, रूखा, बारवार थोडा २ उतरता है एवं कच्चा और उतरते समय पीडा सहित गुड गुड शब्द होता है ॥ ७१ ॥

**लङ्घनमेकं मुक्ता नान्यद्भवतीह भेष-
जं बलिनः । समुदीर्णदोषनिचयं
शमयति तत्पाचयत्येव ॥ ७२ ॥**

अतीसाररोगमे बलवान् रोगीको लंघनके सिवा और कोई औषधि हितकारी नहीं है । क्योंकि, लघन दोषोंको शमन करके पचा देता है ॥ ७२ ॥

**यथा दोषौषधैः सिद्धो यूषो मण्डादि-
कः क्रमात् । लाजमण्डः कृतो योगे-
स्तैः कृता हस्तमण्डिका ॥ वस्त्रसुता
यवागूर्वा प्रसुतक्षुद्रभक्तकम् ॥ ७३ ॥**

यथादोषानुसार चूप औषधियोंके द्वारा और मंडा-दिको क्रमसे सिद्ध करे, तथा फिर उन्हीं औषधियोंके द्वारा लाजमण्ड और हस्तमण्डिकाको भी सिद्ध करे । यवागूको वस्त्रमें छान लेवे और क्षुद्रमंडका जल निचोड देवे ॥ ७३ ॥

**सर्वेषु मलभेदेषु लवणं न प्रयोजयेत् ।
तद्धि तैक्षण्यात्सरत्वाच्च दोषक्षोभाय
कल्पते ॥ ७४ ॥**

सब प्रकारके अतीसारोमे लवणका प्रयोग रुदापि न करे क्योंकि लवणकी तीक्ष्णता और सारकतासे वातादिदोष क्षोभित होते हैं ॥ ७४ ॥

**सुनिषण्णाकवार्त्ताकुं कञ्चटं हितमुच्य-
ते ॥ ७५ ॥**

शिरियारीका शाक, वैगन और कंचट (जलचौं-लाई) ये सब अतीसाररोगमे हितकारक है ॥ ७५ ॥

**कपित्थबिल्वचाङ्गेरी तक्रदाडिमसा-
धिता । ग्राहिणी पाचिनी पेया वा-
ते वा पञ्चमूलिका ॥ ७६ ॥**

कैथ, बेल, चांगेरी, (अम्ल नोनिया) मट्टा और अनार इनके द्वारा सिद्ध की हुई पेया अथवा पंचमूलके द्वारा सिद्ध की हुई पेया वातातिसारमे हितकारिणी है ॥ ७६ ॥

**पञ्चमूली बला बिल्वधान्यकोत्पलबि-
ल्वजा । वातातिसारिणे देया शुक्ते-
नान्यतमेन च ॥ ७७ ॥**

पंचमूल, खिरैटी, बेलको छाल, धनियाँ, कमल और बेलगिरी इनकी बनाई हुई पेयाका शिरकेके साथ वातातिसारमे देना चाहिये ॥ ७७ ॥

**वचा चातिविषा मुस्तं बीजानि कु-
टजस्य च । श्रेष्ठो वातातिसारे च
योगो वैद्येन योजितः ॥ ७८ ॥**

वन्, अतीस, नागरमोथा और इन्द्रजौ इनका काथ वातातिसारमे हितकारी है ॥ ७८ ॥

पृथिकं मागधी शुण्ठी बला धान्य हरीतकी । पक्वाम्बुना पिबेत्सायं वातातीसारशान्तये ॥ ७९ ॥

दुर्गन्धकरंज, पीपल, सोठ, खिरैटी, धानियाँ और हरड इनका काथ सन्ध्याके समय पान करनेसे वातातिार अवश्य नष्ट होता है ॥ ७९ ॥

अथ पित्तातिसारकी चिकित्सा ।

पीतं रक्तसितं नीलं दुर्गन्धि हरितं द्रवम् । दाहपाकपिपासा च शकृत पित्तात्प्रवृत्ते ॥ ८० ॥

पित्तातिसारमे—मल पीला, लाल, सफेद, नीला, दुर्गन्धियुक्त, हरा, पतला, दाह, गुदाका पकना और प्यास होती है ॥ ८० ॥

आमान्वयमतीसारं पैत्तिकं लङ्घनैर्जयेत् । लङ्घितस्य यथासात्म्यं यवागूं मण्डतर्पणैः ॥ ८१ ॥

आमयुक्त पित्तातिसारमे लघन करावे, पञ्चात् गंगाका जो मात्म्य हो गेसी यवागूं, मंड और तर्पण देवे ॥ ८१ ॥

शृतां चन्दनमुस्ताभ्यां पटोलोदीच्यनागरैः । पेयामम्लामनम्लां वा पाचनीं ग्राहणीं पिबेत् ॥ ८२ ॥

चन्दन, नागरमोथा, पटोलपत्र, सुगन्धवाला और सोठ इनके काथसे बनाई हुई पेया इमलीके साथ अथवा तक्रके साथ सेवन करे । यह पेया पाचक और सत्राहक है ॥ ८२ ॥

धान्योदीच्यशृतं तोयं तृष्णादाहातिसारवान् । नाभ्यामेव सपाठार्यां सिद्धमाहारमाचरेत् ॥ ८३ ॥

धानियाँ और सुगन्धवाला इनका काथ तृषा, दाह और अतीसारमे जलकी जगह पीनेको देवे, एवं धनियाँ सुगन्धवाला और पाठा इनके द्वारा सिद्ध किया हुआ भोजन देवे ॥ ८३ ॥

विल्वशक्रयवाम्भोदवालकातिविषायुतः । कषायो हन्त्यतीसारं सामं पित्तसमुद्भवम् ॥ ८४ ॥

बेलगिरी, इन्द्रजौ, नागरमोथा, सुगन्धवाला और अतीस इनका काथ आमसहित पित्तातिसारको नष्ट करता है ॥ ८४ ॥

विल्वविश्वधनोदीच्यधान्यकैः कथितं जलम् । सामपित्तातिसारघ्नं दीपनं धान्यपञ्चकम् ॥ ८५ ॥

बेलगिरी, सोठ, नागरमोथा, सुगन्धवाला और धनियाँ इनका काथ आमसहित पित्तातिसारको नष्ट करनेवाला और दीपन है । अधिक पित्तमे सोठ न देवे ॥ ८५ ॥

रसाञ्जनं सातिविषं कुटजस्य फलत्वचम् । धातकीं शृङ्गवेरश्च पाययेत्तण्डुलाम्बुना ॥ ८६ ॥ माक्षिकेन युतो हन्यात्पित्तातीसारमुल्बणम् । मन्दं सन्दीपयेदग्निं शूलं चाशु निवर्त्तयेत् ॥ ८७ ॥

रसौत, अतीस, कुडकी छाल, इन्द्रजौ, धायके फूल और सोठ इनका चूर्ण करके चावलोके जलके साथ शहद मिलाकर पान करावे । यह योग अत्यंत दारुण पित्तातिसारको नष्ट करनेवाला, अग्निको दीपन और शूलको नष्ट करता है ॥ ८६ ॥ ८७ ॥

मधुकं कट्फलं लोधं दाडिमस्य फलं त्वचम् । पित्तातिसारे मध्वाक्तं पाययेत्तण्डुलाम्बुना ॥ ८८ ॥

मुलैठी, कायफल लोध, और अनारका बकल इनको वारीक पीसकर चावलोके जलके साथ शहद डाल कर पित्तातिसारमे सेवन करनेको देवे ॥ ८८ ॥

समङ्गा धातकीपुष्पं विल्वं सौर्वचलं विडम् । सक्षौद्रं दाडिमं चैककलकं

तण्डुलवारिणा ॥ ८९ ॥ पीतं पित्ता-
तिसारघ्नं सपैतं जठरामयम् ॥ ९० ॥

लज्जावंती, धायके फूल, वेलगिरी, कालानोन, विरिया-
सञ्चर नोन और अनार इनको एकत्र पीस चावलोके
जलके साथ शहद मिलाकर पान करे तो पित्तातिसार
और पित्तज उदररोग नष्ट होता है ॥ ८९ ॥ ९० ॥

धान्यक घृत ।

धान्यकल्केन संसिद्धं चतुर्गुणजले
घृतम् । पित्तातिसारे सरुजे देयं दी-
पनपाचनम् ॥ ९१ ॥

धनियेका कल्क ४ तोले, धी १६ तोले ओर जल
१ सेर लेवे, फिर यथाविधि घृतको सिद्ध करे । यह
घृतपित्तातिसारकी पीडाको नष्ट करता है तथा दीपन
और पाचन है ॥ ९१ ॥

पित्तातिसारमें काथ ।

मुस्तं वत्सकबीजानि भूनिम्बं सर-
साञ्जनम् । दावीं डुरालभा बिल्वं
बालकं रक्तचन्दनम् ॥ ९२ ॥ बालकं
चन्दनं मुस्तं भूनिम्बं सदुरालभम् ।
उशीरं चन्दनं लोध्रं नागरं नीलमु-
त्पलम् ॥ ९३ ॥ पाठा मुस्तं हरिद्रे द्वे
पिप्पली कौटजं फलम् । फलत्वचं
वत्सकस्य शृङ्गवेरं घनं वचा ॥ ९४ ॥
पडेते पाठिका योगाः पित्तातिसार-
नाशनाः ।

नागरमोथा, इन्द्रजौ, चिरायता और रसौत १,
दारुहल्दी, धमासा, वेलगिरी, सुगन्धवाला आर
लाल चन्दन २, सुगन्धवाला, चन्दन, नागरमोथा,
चिरायता और धमासा ३, खस, चन्दन, लोध, सोठ
और नीले कमल, ४, पाठ, नागरमोथा, हल्दी,
दारुहल्दी, पीपल और इन्द्रजौ ५, एवं इन्द्रजा,
कुडेकी छाल, सोठ, नागरमोथा और वच ६, ये छ
योगे कहे । इनमेसे प्रत्येकका काथ पित्तातिसारना-
शक है ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥

अथ रक्तातिसारकी चिकित्सा ।

पित्तकृन्ति यदान्यर्थं द्रव्याण्यश्नाति
पैतिके । तदोपजायतेऽभीक्षणं रक्ताती-
सारमुल्बणम् ॥ ९५ ॥

पित्तातिसारमे पित्तको कुपित करनेवाले पदाथा-
को सर्वदा सेवन करनेसे रक्तातिसार उत्पन्न होता
है ॥ ९५ ॥

तत्र तूर्ण क्रिया कार्या रक्तपित्तनि-
वर्हिणी ॥ ९६ ॥

रक्तातिसारमे शात्र रक्तपित्तनाशक चिकित्सा
करनी चाहिये ॥ ९६ ॥

छागे चाद्धोदके क्षीरे नागरोत्पल-
बालकैः । पेया रक्तातिसारघ्नी पृष्ठ-
पर्ण्या च साधिता ॥ ९७ ॥

वकरीके सेरभर दूधमे सेरभर पानी तथा सोठ,
कमल, सुगन्धवाला और पृष्ठपर्णी डालकर पेया बना-
कर रक्तातिसारमे देवे ॥ ९७ ॥

कषायो मधुना पीतस्त्वचा दाडिमव-
त्सकात् । सद्यो जयेदतीसारं रक्तजं
दुर्निवारकम् ॥ ९८ ॥

अनार और कुडेकी छालके काथमे शहद डालकर
पान करनेसे तत्काल दारुण रक्तातिसार नष्ट
होता है ॥ ९८ ॥

द्विवेरादि ।

द्विवेरातिविषा मुस्ता बिल्वाधान्य
कवत्सकम् । समंगा धातकी लाघ्रं
विश्वं दीपनपाचनम् ॥ ९९ ॥ हन्य-
रोचकपिच्छामं विबन्धं सातिवेदन-
म् । सशोणितमतीसारं सज्वरं वाथ
विज्वरम् ॥ १०० ॥

सुगन्धवाला, अतीस, नागरमोथा, वेलगिरी, धनि-
याँ, इन्द्रजौ, लज्जावंती, धायके फूल, लोध और सोठ
इनका काथ दीपन ओर पाचन है तथा अरुचि,
मलकी पिच्छलता, आम, पीडासहित मलरोध, ज्वर-
सहित या ज्वररहित रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ ९९ ॥
॥ १०० ॥

दिवं छागीपयः सिद्धं सितामोच-
रसान्वितम् । कलिङ्गचूर्णसंयुक्तं रक्ता-
तीसारनाशनम् ॥ १०१ ॥

बेलगिरीको वकरीके दूधमे आटावे फिर उसमे मिश्री, मोचरस और इन्द्रजौका चूर्ण डालकर पीवे तो रक्तातिसार नाश होता है ॥ १०१ ॥

गुडेन भक्षयेद्विल्वं रक्तातीसारना-
शनम् । आमशूलविबन्धनं कुक्षिरो-
गविनाशनम् ॥ १०२ ॥

गुडमें बेलगिरीके चूर्णको मिलाकर भक्षण करनेसे रक्तातिसार नष्ट होता है तथा आम, शूल, विबन्ध और कुक्षिरोग नष्ट होता है ॥ १०२ ॥

धातकीबदरीपत्रकपित्थरसमाक्षि-
म् । सलोध्रमेकतो दध्ना पिबेन्निर्वा-
हिकार्दितः ॥ १०३ ॥

धायके फूल, बेरके पत्ते, कैथका रस, गहद और लाथ इनको दहीके साथ पान करनेसे प्रवाहिका रोग नष्ट होता है ॥ १०३ ॥

पयसा पिप्पलीकल्कः पीतो वा
रिचोद्भवः । त्र्याहान्निर्वाहिकां हन्ति
धिरकालानुबन्धिनीम् ॥ १०४ ॥

पीपलके कल्क अथवा मिरचके कल्कको दूधके साथ सेवन करनेसे, तीन दिनमे बहुत पुराना प्रवाहिका राग नष्ट होता है ॥ १०४ ॥

रसाञ्जनं चातिविषा कुटजस्य फल-
त्वचम् । धातकीमृङ्गवेरञ्च पिबेत्तण्डु-
लवारिणा ॥ १०५ ॥ क्षौद्रेण युक्तं
नुदति रक्तातीसारमुल्बणम् ॥ १०६ ॥

रसौत, अतीस, कुडेकी छाल, इन्द्रजौ, धायके फूल और सोंठ इन सबको एकत्र पीसकर चावलोके जलके साथ गहद मिलाकर पान करे तो रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ १०५ ॥ १०६ ॥

गिरिमल्लिकादि घृत ।

निष्काथमूलममलं गिरिमल्लिकायाः
सम्यक्फलं द्वितयमम्बु चतुःशरां व ।
तत्पादशेषसलिलं खलु शोषणीयं
क्षीरे पलद्वयमिते कुशलेरजायाः ॥
॥ १०७ ॥ प्राक्षिप्य मापकानष्टौ
मधुनस्तत्र शीतले । रक्तानिसारी
तत्पीत्वा नैरुज्यमिद् विन्दति ॥ १०८ ॥

कुडेकी छाल ८ तोले, लेकर चार गजव (१२८ तोले) जलमें पकावे, जब चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतार लेवे, फिर उसमें ८ तोले दूध और शीतल होनेपर ८ तोले गहद मिलाकर पान करे तो इससे रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ १०७ ॥ १०८ ॥

बदरीमूलकल्कन्तु तिलकल्कं नर्थेव
च । संगृह्य स्वरसं तेषामजाक्षरिण
योजयेत् । तत्पिबेन्मधुना युक्तं रक्ता-
तिसारनाशनम् ॥ १०९ ॥

बेरका जडका कल्क और तिलका कल्क इनका स्वरस लेकर वकरीके दूधमे मिलाकर गहदके साथ पान करे तो रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ १०९ ॥

यष्टीमधुतिलाः कृष्णा पञ्चकेसर-
मुत्पलम् । क्षौद्रमत्स्यण्डिकायुक्तमा-
ज्येन पयसा पिबेत् ॥ ११० ॥

सुलैठी, काले तिल, कमलकेशर और कमल इनको पीसकर गहद और मिश्री डालकर वकरीके दूधके साथ पान करे ॥ ११० ॥

पीत्वा शतावरीकल्कं पयसा क्षीरं-
भोजनम् । रक्तातिसारे पीत्वा वा
तया सिद्धं घृतं नरः ॥ १११ ॥

दूधके साथ शतावरीका कल्क भक्षण करे और उसके ऊपर दूध मिला भोजन करे । अथवा शतावरीके कल्कके द्वारा सिद्ध किया हुआ घृत रक्तातिसार-रोगमें पान करे ॥ १११ ॥

क्षीरपिष्टं पिबेद्धोषं यष्ट्याह्वीत्पलमि-
श्रितम् । रक्तातिसारशमनं शर्करा-
मधुयोजितम् ॥ ११२ ॥

लोंव, मुलैठी और कमल इनको दूधमे पीसकर चीनी और गतावर मिलाकर पान करे तो रक्तातिसार घसन होता है ॥ ११२ ॥

**पीतः प्रियङ्गुनः कल्कः सक्षौद्रस्तण्डु-
लाम्बुना । रक्तस्रावं जयेच्छीघ्रं धन्व-
या सरसान्वितः ॥ ११३ ॥**

फूलप्रियङ्गुके कल्कको शहद और चावलोके जलके साथ अथवा धमासेके रसके साथ पीनेसे जीघ्र ही रुधिरका गिरना बंद होता है ॥ ११३ ॥

**कल्कस्तिलानां कृष्णानां शर्कराप-
ञ्चभागिकः । आज्येन पयसा पीतः
सद्यो रक्तं नियच्छति ॥ ११४ ॥**

काले तलिक कल्कमे पाँच भाग निश्रा मिलाकर वकरीके दूधके और घतके साथ पान करे तो तत्काल रुधिरका गिरना बंद होता है ॥ ११४ ॥

**सल्लकीवदरीजम्बूप्रियालाम्राजुनत्व-
चः । पीताः क्षीरेण मध्वाढ्याः
पृथक्शोणितवारणाः ॥ ११५ ॥**

सालई, बेरी, जामुन, चिरौजीका वृक्ष, आम और अर्जुन इनमेसे किसी एककी छाल पीसकर दूध और गहदके साथ पान करे तो रुधिरस्राव बंद होता है ॥ ११५ ॥

**सुस्विन्नकंचटं बालबिल्वं सनवनी-
तकम् । लिह्याद्रक्तातिसारे च सशूले
ग्रहणीगडे ॥ ११६ ॥**

कंचट (जलचौलाई) और कच्चावेल, इनको उवा-
लकर नैनी घी मिलाकर सेवन करे तो शूलयुक्त संग्र-
हणी और रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ ११६ ॥

**वयस्था शारिवा लोधं शर्करा मधु-
याष्टिका । पीतः शतिेन पयसा स-
क्षौद्रो रक्तनाशनः ॥ ११७ ॥**

आमले, सारिवा, लोध, मिश्री और मुलैठी इनके एकत्र पीसकर शहद मिलाकर शीतल जलके साथ सेवन करनेसे रक्ताति सार होता है ॥ ११७ ॥

**मुस्तकेन्द्रयवैः काथं सुशीतं मधुना
युतम् । रक्तपित्तातिसारघ्नं ग्रहणीदो-
षनाशनम् ॥ ११८ ॥**

नागरसोथा और इन्द्रजौ इनका काथ शीतल करके गहद मिलाकर पान करे तो रक्तपित्तातिसार और संग्रहणी रोग नष्ट होता है ॥ ११८ ॥

**नवनीतं मधुयुतं लिह्येद्वा सितया
सह । नागकेशरचूर्णं वा रक्तसंग्रह-
णं परम् ॥ ११९ ॥**

नैनी घीको गहदके साथ या चीनीके साथ अथवा नागकेशरके साथ भक्षण करे तो रुधिरका गिरना बंद होता है ॥ ११९ ॥

**केशराजसमुद्रता जलेन गुटिका
कृता । जयेत्साममतीसारं सशूलं
सास्त्रमाशु च ॥ १२० ॥**

कुकुर भांगरेको जलमे पीसकर गोली बनाकर सेवन करे तो आमातीसार, शूल और रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ १२० ॥

**कृष्णामृन्मधुकं शक्रं कौटजं तण्डु
लांबुना । पीतमेकत्र सक्षौद्रं रक्तसं-
ग्रहणं परम् ॥ १२१ ॥**

काली मट्टी, मुलैठी, कुडेकी छाल और इन्द्रजौ इनको एकत्र पीसकर चावलोके जलके साथ शहद मिलाकर पान करे तो रुधिरका गिरना बन्द होता है ॥ १२१ ॥

**पीत्वा सशर्कराक्षौद्रं चन्दनं तंडुलांबु-
ना । दाहतृष्णाप्रमेहेभ्यो रक्तस्रावा-
च्च मुच्यते ॥ १२२ ॥**

मिश्री, गहद, चन्दन और चावलोका पानी इनको एकत्र पीसकर पान करे तो दाह तृष्णा प्रमेह और रक्तस्राव निवारण होता है ॥ १२२ ॥

**कुटजस्य पलं ग्राह्यमष्टभागे जले शृ-
तम् । तथैव विपचेद्भूयो दाडिमोदक-
संयुतम् ॥ १२३ ॥ यावच्चलसिका-
भासं शृतं तमुपकल्पयेत् । तस्यार्द्धं
कर्षं तत्रेण पिबेद्रक्तातिसारवान् । अ-**

वश्चरणीयोऽपि मृत्योर्याति न गो-
चरः ॥ १२४ ॥

कुडेकी छालको एकपल लेकर आठ भाग जलमे पकाव, फिर उसमे अनारका रस डाल देवे जब पकते २ खूब गाढा हो जावे तब उतार लेवे, पश्चात् उसमे आठ मासे तक मिलाकर पान करे तो मृत्युको प्राप्त हुआ भी रक्तातिसार रोगी बच जाता है ॥ १२३ ॥

कुटजकाथतुल्योऽत्र दाडिमस्य रसो
भूतः ॥ १२५ ॥

यहां कुडेकी छालके समान अनारका रस लेना चाहिये ॥ १२५ ॥

यो रक्तं शकृतः पूर्वं पश्चाद्वा प्रति-
सार्यते । सपल्लवैर्वटादीनां ससर्पिः-
साधितं पयः ॥ १२६ ॥ पिबेत्सशर्क-
राक्षौद्रमथ चैवातिमन्थितम् । नव-
नीतं पिबेद्युक्त्या तक्रं चानुपिबे-
न्नरः ॥ १२७ ॥

जिसके दस्तमे पहले या पश्चात् रुधिर गिरे, वह बढक नवीन घत्तोके कल्क और दूधके द्वारा घृतको सिद्ध करके पान करे अथवा घोलकर मिश्री और गहदमे मिलाकर पानकरे या नैनी धी पान करे किम्वा तक्र पान करे ॥ १२६ ॥ १२७ ॥

पिच्छ वस्ति ।

अल्पाल्पं बहुशो रक्तं सशूलमुपदे-
क्ष्यते । यदा वायुर्विबद्धश्च पिच्छव-
स्तिस्तदा हितः ॥ १२८ ॥

जो थोडा २ या बहुतसा रुधिर श्लयुक्त निकले और वायुका विबन्ध हो तो पिच्छल वास्ति लगावे ॥ १२८ ॥

शाल्यलेरार्द्रपुष्पाणि पुटपाककृता-
नि च । संकुटचोलखले सम्यग्गृहीया-
त्पयसि शृते ॥ १२९ ॥ गृहीत्वा च पलं
तस्य त्रिपलं घृततैलयोः । युक्तं मधुक-
कल्केन माक्षिकत्रिपलेन च ॥ १३० ॥
“तेलात्तत्रपुषं दद्याद्वस्तेः प्रत्यागते

रसे । भोजेयत्पयसा वापि पित्तानी-
सारपीडितम् ॥ १३१ ॥

लेमलके गीले फूल लेकर पुटपाकविधिसे पकावे फिर उनको खरलमे पीसकर दूधमे औटावे, पश्चात् उसमेसे एक पल धी और तेल चारह २ तोले एवं मुलै-
ठी और गहद चारह २ तोले लेवे, सबको मिलाकर पिचकारीके द्वारा प्रयोग करे परन्तु प्रथम शरीरपर तेलकी मालिश करलेवे । जब यह रस वस्तीमेमे निकल आवे तब दूधके साथ भोजन करावे । पित्तातिसारपीडित मनुष्योंके यह पिच्छलवस्ति अत्यन्त हितकारी है ॥ १२९ ॥ १३० ॥ १३१ ॥

क्षीरद्रुमाणाश्च रसे विपक्वं तज्जेश्च
कल्कैः पयसा च सर्पिः । सितोपलार्द्रं
मधुपादयुक्तं रक्तातिसारं शमय-
त्युद्दीर्णम् ॥ १३२ ॥

क्षीरवृक्ष (वड, गलर, पीपल, बेलिचापीपल, पाखर) के स्वरस अथवा काथ और कल्कमे दूध एवं धी डालकर पकावे । जब घृत सिद्ध होजाय तब उसमे मिश्री २ तोले और गहद १ तोला मिलादेवे इस घृतको सेवन करनेसे रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ १३२ ॥

दाहे धाक्के हितं चाजं पयः क्षौद्रं
सशर्करम् । गुदप्रक्षालने सेकं प्रशस्तं
पानभोजने ॥ १३३ ॥

गुदामे दाह हो, अथवा गुदा पकजाय तो बकराक दूधमे गहद और मिश्री मिलाकर गुदाको धोवे या सींचे अथवा पान और भोजन करे ॥ १३३ ॥

चाङ्गराघृत ।

स्वेदोऽथ मूपिकामांसैस्तद्वसास्रं-
णं तथा । गुदनिस्सरणे शस्तं चाङ्गे-
रीघृतमुत्तमम् ॥ १३४ ॥

जो गुदा बाहरको निकल आवे तो मूपेके मांसका स्वेद (वफारा) देवे अथवा उसीकी चर्बीको गुदाके ऊपर बाँधे । चांगेरी घृतका गुदाके निकलनेसे सेवन उत्तम है ॥ १३४ ॥

शंबूकमांसं सुस्विन्नं सतैललवणान्वि-
तम् । ईषद्घृतेन चाभ्यज्य स्वेदयेत्तेन

यत्नतः ॥ १३५ ॥ गुदभ्रंशमशेषेण ना-
शयेत्क्षिप्रमेव वा ॥ १३६ ॥

शम्बूक (घोघे) के मांसको सिजाकर तेल और लवण तथा किंचित् घीमे मिलाकर प्रथम गुदांमे तेल मलकर पश्चात् उसका स्वेद (बफारा) देवे, इससे गुदभ्रंशकी सम्पूर्ण पीडा नष्ट होती है ॥ १३५ ॥ ॥ १३६ ॥

मेघनादस्य मूलानि मधुना सितया
सह । निहन्ति शोणितस्त्रावं तंडु-
लोदकपानतः ॥ १३७ ॥

चौलाईकी जड़को पीसकर शहद, मिश्री और चावलोके जलके साथ पान करनेसे रुधिरका गिरना चढ़ होता है ॥ १३७ ॥

अथ कफातिसार ।

श्वेतं विस्रङ्गनं स्निग्धं शीतलं मन्द-
वेदनम् । गौरवारुचिहल्लासैः पुरीषं
सार्यते कफात् ॥ १३८ ॥

कफातिसारमें मल सफ़ेद, आमगन्धयुक्त, गाढ़ा, चिकना, शीतल, अल्पपीडायुक्त, जरीरसे भारीपन, अमचि और उबकाई ये सब लक्षण हात है ॥ १३८ ॥

श्लेष्मातिसारे प्रथमं हितं लङ्घनपा-
चनम् । योज्यश्वात्मातिसारघ्नो यथो-
क्तो दीपनो गणः ॥ १३९ ॥

कफातिसारमें प्रथम लंघन कराना और पाचन दना हितकारी है; पश्चात् आमातिसारनाशक दीपन औपधि देनी चाहिए ॥ १३९ ॥

पूतिकव्योषविल्वाग्निपाठादाडिमहिं-
गुभिः । योजयेत्संस्कृतेर्युषः श्लेष्मा-
तीसारनाशनः ॥ १४० ॥

दुर्गंधकरंज, त्रिकुटा, बेलगिरी, चीता, पाट, अनार और हींग इनके काथका चूप बनाकर पान करे तो कफातीसार नष्ट होता है ॥ १४० ॥

गोकण्टकं गुहाव्याघ्रीकषायं सुशृतं
पिबेत् । आमश्लेष्मातिसारघ्नं दीपनं
पाचनं परम् १४१ ॥

गोखरू, पिठवन और कटेरीका काथ आमातिसार नाशक है । एवं दीपन, और पाचन है ॥ १४१ ॥

पथ्या सौवर्चलं हिंगुसैन्धवातिवि-
षा वचा । आमातिसारकफजं पी-
तमुष्णाम्बुना जयेत् ॥ १४२ ॥

हरड, कालानोन, हींग, सैधानोन, अतीस और वच इनको एकत्र पीसकर चूर्ण करले, इस चूर्णको गरम जलके साथ पान करे तो आमसहित कफातीसार नष्ट होता है ॥ १४२ ॥

चव्यं सातिविषं कुष्ठं बालबिल्वं स-
नागरम् । वत्सकत्वक्फलं पथ्या छर्दि-
श्लेष्मातिसारनुत् ॥ १४३ ॥

चव्य, अतीस, कूट, कच्चेबेलका गूदा, सोठ, कुडेकी छाल, इन्द्रजौ और हरड इनका काथ वसन और कफातीसारको नष्ट करता है ॥ १४३ ॥

पथ्याग्निक्कुटापाठावचाग्रन्थिकवत्स-
कैः । सनागरैर्जयेत्काथः कल्को वा
श्लेष्मिकीं सु तिम् ॥ १४४ ॥

हरड, चीता, कुटकी, पाठ, वच, पीपलामूल, डे-
कीछाल और सोठ इनका काथ कफातिसारको नष्ट करता है ॥ १४४ ॥

पाठा वचा त्रिकटुकं कुष्ठं कटुकरोहि-
णी । उष्णांबुपेयान्येतानि श्ले-
ष्मातीसारशान्तये ॥ १४५ ॥

पाट, वच, त्रिकुटा, कूठ, और कुटकी इनका चूर्ण करके गरम जलके साथ पान करनेसे कफाति-
सार नष्ट होता है ॥ १४५ ॥

हिङ्गु सौवर्चलं व्योषमभयातिविषा
वचा । पीतमुष्णाम्बुना चूर्णं श्लेष्मा-
तीसारशान्तये ॥ १४६ ॥

हींग, कालानोन, त्रिकुटा, हरड, अतीस और वच इनके चूर्णको गरम जलके साथ पान करनेसे कफा-
तिसार नष्ट होता है ॥ १४६ ॥

कुष्ठं पाठा वचा मुस्तं चित्रकं कटु-
रोहिणी । पीतमुष्णाम्बुना चूर्णं
श्लेष्मातीसारनाशनम् ॥ १४७ ॥

कूट, पाठ, वच, नागरसोथा, चीता, और कुटकी
इनका चूर्ण गरम जलके साथ पान करनेसे कफाति-
सार नष्ट होता है ॥ १४७ ॥

चव्यं सातिविषं कुष्ठं पाठा च कटुरो-
हिणी । अभयाम्बुधरा शुण्ठी बिल्व-
कर्कटिकायुता ॥ १४८ ॥ चित्रकं पि-
प्पलीमूलं पिप्पली गजपिप्पली ।
कृमिशत्रुवचा बिल्वपेशीधान्यकक
टफलम् ॥ १४९ ॥ श्लोकार्धविहिता
योगाश्चत्वारः कण्टकाः स्मृताः ।
श्लेष्मातिसारिणे देया ह्येते वर्णवल-
ज्जदाः ॥ १५० ॥


१ चव्य, अतीस, कूट, पाठ और कुटकी, २
हरड, नागरसोथा, सोठ, बेलगिरी और काकडाशिगी
३ चीता, पीपलामूल, पीपल और गजपीपल, ४ वाय-
विडग, वच, बेलगिरी धनियों और कायफल, इन
चार योगोपमे किसी एकका साथ पान करनेसे कफा-
तिसार नष्ट होता है तथा वर्ण और बलकी वृद्धि
पती है ॥ १४८ ॥ १४९ ॥ १५० ॥

नागरादिवटक ।

नागरातिविषा मुस्तं यवानी चित्र-
कं वचा । शठी पुष्करमूलश्च पाठा
कटुरोहिणी ॥ १५१ ॥ भल्लातका-
स्थान्यभया धातकी कौटजं फलम् ।
हिङ्गुसौवर्चलं क्षारं विडङ्गं विडसै-
न्धवम् ॥ १५२ ॥ सूत्रपिष्टान्समाने-
तान्वटकानक्षसम्मितान् । छायाशु-
ष्कांस्तु ताज्जात्वा दद्याच्छ्लेष्मातिसा-
रिणे ॥ १५३ ॥ कृमिश्वपथुपांड्वितिप्ती-
हगुल्मोदरापहान् । ग्रहण्यशौविका-
ग्नाग्निसन्दीपनात्पिवेत् ॥ १५४ ॥

सोठ, अतीस, नागरसोथा, अजवायन, चीता,
वच कचूर, पोहकरमूल, पाठ, कुटकी, मिलावेकी
मीग, हरड, धायक फूल, इन्द्रजौ, हींग, कालानोन,
जवाखार, वायविडंग, विडियासंचरनोन, और सैधा-
नोन इन सबको समान भाग लेकर गोमूत्रमे पीसकर
एक एक तोलेके बडे बनाकर छायामे सुखा देवे ।
इनको सेवन करनेसे कफातिसार, कृमिरोग, मूजन,
पाण्डुरोग, फ्रीहा, गुल्म, उदररोग संग्रहणी और
ववासीर नष्ट होती है और अग्निसन्दीपन होता है ॥
॥ १५१ ॥ १५२ ॥ १५३ ॥ १५४ ॥

त्रिदोषातिसार चिकित्सा ।



तन्द्रायुक्तो मोहसादास्यशोषी वर्चः
कुर्यात्रकरूपं तृषार्त्तः । सर्वोद्भूतः स
र्वलिङ्गोपपत्तिः कृच्छ्रासाध्यो बाल-
वृद्धासहानाम् ॥ १५५ ॥

तन्द्रा, मोह, शरीरमे ग्लानि मुखशोष, मलका
रंग तीनों दोषोके लक्षणोवाला हो और तृषाका अ-
धिक लगना, इसमे तीनों दोषोके लक्षण मिलते है ।
यह कृच्छ्र साध्य है, पर बालक, वृद्ध और कमजोर
मनुष्योके उत्पन्न हो तो असाध्य जानना ॥ १५५ ॥

बृहच्छालिपर्ण्यादि ।

शालिपर्णी पृथिवर्णी बृहती कण्ट-
कारिका । बलाश्वदंष्ट्राविल्वानि
पाठा नागरधान्यकम् । एतदाहार-
संयोगे हितं सर्वातिसारिणाम् ॥ १५६ ॥

शालपर्णी (सरिवन्) पृथिवर्णी (पिठवन) बडी-
कटेरी, खिरैटी, गोखरू, बेलगिरी, पाठ, सोठ और
धनियों इनकी पेया बनाकर आहारके साथ सेवन
करे । यह पेया सर्वातिसार अर्थात् त्रिदोषातीसारवाले
रोगको अत्यंत हितकारी है ॥ १५६ ॥

यत्र कलेकेन सांसिद्धा प्रसारिण्याग्नि-
मन्थयोः । यवागूं प्राश्यमानोऽपि
वातसारी सुखी भवेत् ॥ १५७ ॥

प्रसारणी और अरणी इनके कल्कद्वारा यवागू सेवन करे तो त्रिदोषातिसार रोगी सुखी होता है १५७

अजमोदा समङ्गा च वालकं पद्मके-
सरम् । यवागूं साधयेदेतैः सर्वाती-
सारनाशिनीम् ॥ १५८ ॥

अजमोद, लज्जावंती, सुगन्धवाला, कमलकेशर इनकी यवागू सब प्रकारके अतीसारको नष्ट करती है ॥ १५८ ॥

शावरकभद्रमुस्ताविश्वौषधबिल्वधा-
तकीपुष्पैः । सिद्धा तत्र यवागूर्देया
सर्वातिसारिषु च ॥ १५९ ॥

लोध, नागरमोथा, सोठ, वेलगिरी और धायके फूल इनके द्वारा यवागू बनाकर सेवन करनेसे सर्व प्रकारके अतीसार नष्ट होते हैं ॥ १५९ ॥

स्विन्नं कुतूहलदहने चाङ्गेरीपत्रसञ्च-
यं युक्त्या । सिन्धूद्रवेन मिश्रं हन्त्य-
रुचिं जठररोगञ्च ॥ १६० ॥

चांगेरी (खटकल) के पत्तोंको युक्तिपूर्वक अच्छे प्रकार अग्निमें पुटपाकविधिसे पकाकर उनका रस निकालकर फिर उस रसमें सैधानमक मिलाकर सेवन करे तो अरुचि और उदररोग दूर होता है ॥ १६० ॥

कट्वङ्गमौचाह्वघनाम्बुबिल्वैः ससा-
रिवावत्सकनागरैश्च । जलं शृतं सर्व-
भवं नराणां निहन्त्यतीसारमसक्तवे-
गम् ॥ १६१ ॥

ज्योनाककी जड़, मोचरस, नागरमोथा, सुगन्ध-
वाला, वेलगिरी, अनन्तमूल, कुडेकी छाल और सोठ इनका काथ पान करनेसे सर्व प्रकारके अतीसार नष्ट होते हैं ॥ १६१ ॥

पञ्चमूल्यादि ।

पञ्चमूलीबलाबिल्वगुडूचीमुस्तनाग-

रैः । पाठाभूनिम्बद्विवेरकुटजत्वक्फलैः
शृतम् ॥ १६२ ॥ हन्ति सर्वानतीसा-

राञ्ज्वरदोषं वामिं तथा । सशूलोप-
द्रवं श्वासं कासं हन्यात्सुदुस्तरम् १६३

पंचमूल, खिरौटी, वेलगिरी, गिलोय, नागरमोथा, सोठ, पाद, चिरायता, सुगन्धवाला, कुडेकी छाल

और इन्द्रजौ इनका काथ सर्व प्रकारके अतीसार, ज्वरदोष, वमन, शूल, श्वास आदि दुस्तर उपद्रवोंको नष्ट करता है ॥ १६२ ॥ १६३ ॥

पञ्चमूलीति सामान्यात्पित्ते योज्या
कनीयसी । महती पञ्चमूली च वात-
श्लेष्माधिके तथा ॥ १६४ ॥

पित्तातीसारमें तो लघुपंचमूल और वातकफाती-
सारमें बृहत्पंचमूल लेना चाहिये ॥ १६४ ॥

समङ्गातिविषासुस्तं द्विवेरं विश्व-
धातकी । कुटजत्वक्फलं बिल्वं काथः
सर्वातिसारनुत् ॥ १६५ ॥

सर्जाठ, अतीस, नागरमोथा, सुगन्धवाला, सोठ, धायके फूल, कुडेकी छाल, इन्द्रजौ और वेलगिरी इन का काथ सर्वप्रकारके अतीसारको नष्ट करता है १६५

अभया नागरं मुस्तं गुडेन सह यो-
जितम् । चतुःसमेयं गुटिका त्रिदो-
षघ्नी प्रकीर्त्तिता ॥ १६६ ॥ आमा-
तिसारमानाहं विविधां च विषू-
चिकाम् । कृमीनरोचकं हन्यादीप-
यत्याशु चानलम् ॥ १६७ ॥

हरड, सोठ और नागरमोथा इनको एकत्र पीस-
कर गुडमें मिलाकर गोली बनावे । यह चतुःसमगुटि-
का त्रिदोषातीसारको नष्ट करती है, तथा आमातीसार,
आनाह, अनेक प्रकारकी विषूचिका, कृमिरोग और
अरुचि इनको नाश करती है एवं जठराग्निको दीपन
करती है ॥ १६६ ॥ १६७ ॥

बिल्वाब्दधातकीपाठाशुण्ठीमोचरसः
समः । पीतो रुन्ध्यादतीसारं गुडत-
क्रैण दुर्जयम् ॥ १६८ ॥

वेलगिरी, नागरमोथा, धायके फूल, पाद, सोठ और
मोचरस, इनके काथमें गुड और तक्र मिलाकर सेवन
करे तो दुस्तर अतीसार नष्ट होता है ॥ १६८ ॥

दण्डीन्दीवरकेसराजशिखरीक्षीरावि-
कादीप्यकं सूर्यावर्त्तकजीरकद्रव्य-
युतं भृष्टं मनाक् खर्परे ॥ पिष्ट्वा

पर्युषेताम्बुना दिनेमुखे पीतं निह-
न्यान्नृणां नानावर्णरुजातिसारकगदं
प्रोवाच धन्वन्तरिः ॥ १६९ ॥

दौना, नीलेकमल, कुकुरझंगरा, चिरचिटा, दुड्डी,
अजवायन, हुलहुल, जीरा और कालाजीरा, इन सब-
को विधिसे खोपडेमें भूनकर वासी जलमें पीसकर
प्रातःकाल पीवे तो अनेक प्रकारका पीडा युक्त अती-
सार नष्ट होता है ऐसा धन्वन्तरिने कहा है ॥ १६९ ॥

पलमङ्कोटमूलस्य पाठादाव्योश्च पेप-
येत् । यष्ट्याम्बुनाक्षमात्रस्य वटी
सर्वातिसारहा ॥ १७० ॥

सम भाग मुलैठीके जलमें पीसकर एक २ तोलकी
गोली बनालेवे । यह गोली सब प्रकारके अतिसारो
को नष्ट करती है ॥ १७० ॥

अंकोटमूलं तक्रेण ह्यतिसारहरं पर-
म् । माहिषेण तु तक्रेण पाठापत्रं
तथैव च ॥ १७१ ॥

अंकोटकी जड़को तक्रके साथ सेवन करनेसे अती-
सार नष्ट होता है । एवं पाठके पत्तोको भैसके तक्रके
साथ सेवन करनेसे अतीसार नष्ट होता है ॥ १७१ ॥

कुटजत्वक्फलं मुस्तं काथयित्वा
जलं पिबेत् । अतिसारं जयत्याशु
शर्करामधुसंयुतम् ॥ १७२ ॥

कुड़ेकी छाल, कुड़ेके बीज (इन्द्रजौ) और नाग-
रमोथा इनका काथ बनाकर मिश्री और शहद मिला-
कर पान करे तो शीघ्र ही अतीसार नष्ट होता है ॥ १७२ ॥

विभीतकफलं दग्धं हन्याल्लवणसंयु-
तम् । महान्तमप्यतीसारं चक्रपाणि-
रिवासुरान् ॥ १७३ ॥

बहेडेके फलको भूनकर नमक मिलाकर सेवन
करे तो महाबोर अतीसार नष्ट होता है जैसे विष्णु
असुरोंको नष्ट करते हैं ॥ १७३ ॥

वटप्ररोहं संपेप्य श्लक्ष्णं तंडुलवारि-
णा । तं पिबेत्तक्रसंयुक्तमतिसारहरं
परम् ॥ १७४ ॥

वटके अंकुरोंको चावलोके जलमें घासीक पीसकर
तक्रके साथ पीनेसे अतीसार दूर होता है ॥ १७४ ॥

चार यूप ।

धातकी नागरं विल्वं सलांघ्रं पद्मके-
सरम् । जम्बूत्पङ्गनागरं धान्यं पाठा
मोचरलं तथा ॥ १७५ ॥ समं गा धा-
तकी विल्वं मध्यजंबूवास्रयोरत्यचः ।
कपित्थानि विडंगानि नागरं मरि-
चानि च ॥ १७६ ॥ चांगरी तत्र को-
लास्तलं चत्वारस्ते कपोत्तो । श्लोका-
र्द्धं विहितान्द्रुचात्सस्त्रेहलवणान्गुडा-
न् ॥ १७७ ॥

वायके फूल, सोठ, बेलगिरी, लोध, कमलकंठर
१, जामुनकी छाल, सोठ, धनिया, पाठ और मोच-
रस २, मजीठ, धायके फूल, बेलगिरी, जामुन और
आमकी छाल ३, कैथ, वायविडिंग, सोठ, मिरच,
चांगी (खटकल) और खट्टे बेर ४ इन योगोमेंसे
किसी एक योगका यूप बनाकर, घृत, नमक और
गुड मिलाकर सेवन करे तो कफाधिक अतीसार दूर
होता है ॥ १७५ ॥ १७६ ॥ १७७ ॥

कुटजपुटपाक ।

अवेदनं सुसम्पन्नं दीप्ताग्नेः सुचिरो-
त्थितम् । नानावर्णनतीसारं पुटपा-
कैरुपाचरेत् ॥ १७८ ॥

पीडारहित, पक, दीप्ताग्निवाले और जिसके अती-
सार उत्पन्न हुए बहुत दिन होगये हैं, उसके नाना
प्रकारके रंगका अतीसार हो तो उसकी पुटपाककी
विधिके द्वारा चिकित्सा करे ॥ १७८ ॥

स्निग्धं धनं कुटजवल्कलजन्तव जग्ध-
मादाय तत्क्षणमतीव च पेषयित्वा ।
जम्बूपलाशदलतण्डुलतोयसिक्तं बद्धं
कुशेन च बाहिर्धनपंकलितम् ॥ १७९ ॥
सुस्विन्नसेतदवपीड्य रसं गृहीत्वा क्षौ-
द्रेण युक्तमतिसारवते प्रदद्यात् । कृ-
ष्णात्रिपुत्रमतिपूजित एष योगः सर्वा-
तिसारहरणे स्वयमेव राजा ॥ १८० ॥

चिकनी, भारी और जिराको कीड़े न लगे हों ऐसी कुड़ेकी छालको लेकर चावलेके जलमें खूब वारीक पीसकर गोली बना लेवे, फिर उस गोलीको जामुन और ढाकके पत्तोंसे लपेटकर कुड़ासे वेष्टित कर ऊपरसे गारेका लेपकर सुखा देवे, पश्चात् पुटपाक की विधिसे पकावे । फिर उसकी मट्टीको और पत्तोंको अलग करके रस निकाल लेवे उस रसमें गहद मिलाकर सेवन करनेसे अतीसार रोग नष्ट होता है यह कृष्णात्रेयका कहा हुआ सर्व योगोका राजा है ॥ १७९ ॥ १८० ॥

श्योनाकपुटपाक ।

काश्मरीपद्मपत्रैश्च पक्त्वा कटुङ्गवल्कलम् । सपद्मकेसरो आही स्याद्रसो मधुसंयुतः ॥ १८१ ॥

श्योनाककी छालको वारीक पीसकर, कुम्भेर, कमलपत्र और कमलकेशरसे वेष्टित करके पुटपाक विधिसे पकावे, पश्चात् उसका रस निकालकर गहद मिलाकर सेवन करे तो इससे अतिसार रोग नष्ट होता है ॥ १८१ ॥

न्यग्रोधादिपुटपाक ।

न्यग्रोधादिगणापूर्णपुटपाकश्च तित्तिरे ।
द्रवो मधुसितोपेतः पीतो
हन्त्युदरामयम् ॥ १८२ ॥

न्यग्रोधादि गणकी समस्त औषधियाँ लेकर उनको खूब वारीक पीसकर तीतरके पेटमें भरकर पुटपाक विधिसे पकावे । फिर उसका रस निकालकर गहद मिलाकर पान करे तो अतीसार रोग नष्ट होता है ॥ १८२ ॥

शुण्ठीपुटपाक ।

शुण्ठीमल्पवृत्तान्वितां परिवृतां गो-
धूमपिष्टैस्ततः । सद्यो गोमयवेष्टि-
तान्तु विपचेन्मन्दाग्निना चातुरः ॥
शीतीकृत्य सितासमां प्रतिदिनं
भक्षेत्रः पथ्यभुक् । सर्वोपद्रवसंयुता-
नपि जयेद्दीर्घातिसाराभयान् ॥ १८३ ॥

सोठके चूर्णको कुड़ेके घीमें मिलाकर फिर गेहूँके आटेका गोला बनाकर उसके मध्यमें रख देवे पश्चात् उसको डोरे आदिसे बाँधकर ऊपरसे गोबरका लेप

करके मंद २ अग्निसे पकावे, जब शीतल होजावे तब वरावरकी मिश्री मिलाकर प्रतिदिन बलानुसार भक्षण करे और पथ्य भोजन करे । यह सर्व उपद्रव सहित और बहुत दिनोंके पुराने अतीसारको भी नष्ट करता है ॥ १८३ ॥

पुटपाकलक्षण ।

पुटपाकस्य पाकोऽयं बहिरारक्तवर्ण-
ता । भेषजत्वात्पलस्यास्य, पानाधिष्टं
चिकित्सकैः ॥ १८४ ॥

पुटपाककी यह विधि है कि, जब पुटपाक ऊपर से लाल हो जाय तब उसको निकालकर औषधियों से रसको निचोड़ लेवे इसमेंसे एक पल लेकर पान करना चाहिये ॥ १८४ ॥

कुटजावलेह ।

कुटजत्वक्कृतः काथो वनीभूतः सुशो-
भनः । स लीढोऽतिविषायुक्तः सर्वा-
तीसारनुद्भवेत् ॥ १८५ ॥ इच्छन्त्यन्नाष्ट-
माग्निना काथादतिविषारजः ॥ १८६ ॥

कुड़ेकी छालको जलमें पकावे जब पकते २ जल गाढा हो जाय तब उसमें आठ भाग अतीसका चूर्ण डालकर सेवन करे यह सब प्रकारके अतीसारको नष्ट करती है ॥ १८५ ॥ १८६ ॥

मूलं त्वचः पलशतं रक्तस्य कुटजस्य
च । जलद्रोणे विपाच्यैतत्पादशो-
षमथोद्धरेत् ॥ १८७ ॥ भूयस्तद्वि-
पचेत्तावद्यावत्सान्द्रत्वमिति च । सै-
न्धवाक्षविडक्षारकृष्णेन्द्रयवधातकी
॥ १८८ ॥ जीरं चूर्णं समं कृत्वा
मध्वक्तं विलिहेत्ततः । ततो महिष-
दध्ना च भोजयेच्च तमातुरम् । दुर्नि-
वारमतीसारं जयेदेतदसंशयः ॥ १८९ ॥

लालकुड़ेकी जड़की छालको १०० पल लेकर एक द्रोण जलमें पकावे जब चौथाई भाग जल शेष रह जाय तब उतारकर छान लेवे फिर उसको चूल्हे पर चढाकर पकावे जब पककर खूब गाढा हो जाय तब उसमें सेधानोन, कालानोन, विडनोन, पीपल, इन्द्रजौ, धायके फूल और जीरा इन सबको समान भाग

लेकर चूर्ण करके मिला देवे । इसमें शहद मिलाकर चाटे आर इसके ऊपर भैसका दही भोजन करे तो इससे निःसन्देह दुर्निवार अतीसार दूर होता है ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ १८९ ॥

द्वितीय कुटजावलेह ।

शतं कुटजमूलस्य धुण्णं तोयाऽर्मणे पचेत् । काथे पादावशेषेऽस्मिंस्लेही-भूतः पुनः पचेत् ॥ १९० ॥ सौवर्चल-यवक्षारविडसैन्धवपिप्पली । धातकी-न्द्रयवाजाजी चूर्णं दत्त्वा पलद्वयम् ॥ १९१ ॥ लिह्याद्द्वदरमात्रन्तु तच्छीतं मधुसंयुतम् । पक्वापकमतीसारं नाना-वर्णं सेवेदनम् ॥ दुर्वारग्रहणीदोषं जयेच्चैव प्रवाहिकाम् ॥ १९२ ॥

कुडेकी जडकी छाल १०० पल लेकर कूट लेवे फिर उसको १ द्रोण जलमे पकावे, जब चौथाई जल शेष रह जाय तब उतार कर छान लेवे फिर दुवारा चूल्हे पर रखकर पकावे जब पकते २ गाढा हो जाय तब कालानोन, जवाखार, विडियानमक, सैधालवण, पीपल, धायके फूल, इन्द्रजौ और जीरा इनका दो २ पल चूर्ण मिला देवे, जब शीतल होजाय तब शहद मिला देवे, रातीदिन एक कर्प इससेसे भक्षण करे । इससे पक और अपक दोनों प्रकारका अतीसार अनेक रंगकी पीढायुक्त दुर्निवार संग्रहणी और प्रवाहिका रोग नष्ट होता है ॥ १९० ॥ १९१ ॥ १९२ ॥

लेहे यत्रास्ति नो भागो निर्दिष्टो द्र-व्यकल्कयोः । तत्रापि पादिकः का-र्य्यो द्रवात्कल्को विजानता ॥ १९३ ॥

जिस लेहमे द्रव्य और कल्ककी मात्रा नहीं कही वहां द्रव्यसे कल्क चौथाई भाग लेना चाहिए ॥ १९३ ॥

तृतीय कुटजावलेह ।

कुटजत्वक्पलशतं कषायमुपकल्पयेत् । वस्त्रपूतं पुनः काथ्यं यदा लेह-त्वमागतम् ॥ १९४ ॥ भल्लातकं विड-ङ्गानि त्रिफला त्रिकटु तथा । रसा-अनं चित्रकञ्च कुटजस्य फलानि च ॥ १९५ ॥ वचा सातिविषा बिल्वं

पाठा मोचरसस्तथा । बालकञ्च सम-ङ्गा च प्रत्येकं तु पलं पलम् ॥ १९६ ॥ त्रिंशत्पलं गुडस्याथ चूर्णिकृत्य प्रदा-पयेत् । मधुनः कुडवं दत्त्वा घृतस्य कुडवं तथा ॥ १९७ ॥ एष लेहस्तु शमयेदर्शो रक्तसमुद्भवम् । वातिकं पैत्तिकञ्चैव श्लेष्मकं सान्निपातिकम् ॥ १९८ ॥ ये च दुर्नामजा रोगा-स्तांस्तु सर्वान् व्यपोहति । रक्तपित्त-मतीसारं पांडुगोगमरोचकम् ॥ १९९ ॥ ग्रहणीं मार्दवं कार्श्यं श्वयथुं कामला-मपि । अनुपाने च तं दद्यादाथि तक्रं घृतं पयः ॥ २०० ॥

कुडेकी छालको १०० पल लेकर काथ वनाकर कपडेमे छान लेवे, फिर दुवारा चूल्हे पर चढाकर पकावे, जब पकते २ लेहकी समान गाढा हो जाय तब उसमे मिलावे, वायविडंग, त्रिफला, त्रिकुटा, रसौत, चीता, इन्द्रजौ, वच, अतीस, बेलगिरी, पाढ, मोचरस, सुगन्धवाला और मजीठ प्रत्येकका चूर्ण चार २ तोले और गुड ३० पल मिला देवे शहद ३२ तोले और घी ३२ तोले, शीतल होनेपर मिला देवे । इस लेहको चाटनेसे रुधिरकी बवासीर, पित्तकी बवासीर, कफकी बवासीर, सान्निपातकी बवासीर और सब प्रकार की बवासीर, रक्तपित्त, आतिसार, पांडुरोग, अरुचि, संग्रहणी, मृदुता, कृशता, सूजन और कामला रोग यह सब नष्ट होते हैं । इसपर अनुपानमे तक्र, दही, दूध और घी इनको देवे ॥ १९४—२०० ॥

कुटजाष्टकावलेह ।

तुलामथार्द्रागिरिमल्लिकायाः संकुट्वा पक्त्वा रसमाददीत । तस्मिन् सुतते पलसंमितानि संचूर्ण्य दद्यात्सह शा-ल्मलेन ॥ २०१ ॥ पाठां समङ्गाति-विषां समुस्तां बिल्वञ्च पुष्पाणि च धातकीनाम् ॥ प्राक्षिप्य भूयो विप-चेच्च तावद् दार्वीप्रलेपः स्वरसस्य यावत् ॥ २०२ ॥ पीतस्त्वसौ काल-

विदा जलेन मण्डेन वाऽजापयसाथ
वापि । निहन्ति सर्वं त्वतिसारमुग्रं
कृष्णं सितं लोहितपीतकञ्च ॥ २०३ ॥
दोषञ्च हन्याद्विधं सरक्तं पित्तं
तथाशांसि सशोणितानि । असृग्दर-
श्वेवमसाध्यरूपं निहन्त्यवश्यं कुटजा-
ष्टकोऽयम् ॥ २०४ ॥ तुलाद्रव्ये जल-
द्रोणो द्रोणे द्रव्यतुला मताः । जीर्णे
त्वपथ्यभोजी स्यादर्शोभ्यः प्रतिमु-
च्यते । रोगानीकविनाशाय कौटजो
लेह ईरितः ॥ २०५ ॥

कुडेकी गोली छाल १०० पल लेकर ओखलीमे
डालकर कूटे, पश्चान् एकद्रोण जलमें पकावे जब
चौथाई भाग जलशेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे
फिर दुबारा चूल्हे पर रखकर पकावे जब पकते २
खूब गाढा होजाय तब सेमलकी गोंद, पाह, मजीठ,
अतीस, नागरमोथा और धायके फूल इन प्रत्येकका
चूर्ण चार २ तोले मिलाकर तबतक पकावे जबतक
करछोसे न चिपकने लगे फिर इसको जलमंड अथवा
वकरीके दूधके साथ सेवन करे । यह सब प्रकारके उग्र
अतीसार, कृष्ण, श्वेत, लाल और पीले रंगके दस्त,
रक्तपित्त, रुधिरकी बवासीर और असाध्य रक्तप्रदर-
को नष्ट करता है । जब यह जीर्ण होजाय तब पथ्य
भोजन करे । यह कुटजावलेह रोगमात्रको नष्ट कर-
नेके लिये कहा है ॥ २०१—२०५ ॥

अंकोटवटक ।

सदाव्यंकोटपाठानां मूलं त्वक्कुटज-
स्य च । शाल्मलीशालनिर्यासं
धातकीं लोधदाडिमम् ॥ २०६ ॥
पिष्ट्वाक्षसंभितान् कृत्वा वटकांस्तंडु-
लाम्बुना । तेनैव मधुसंयुक्तानैकेका-
न् प्रातरुत्थितः ॥ २०७ ॥ पिवेदत्य-
यमापन्नो विडूविसर्गेण मानवः ।
अङ्कोटवटको नाम्ना सर्वातीसारना-
शनः ॥ २०८ ॥

दारुहल्दी, अंकोलकी जड, पाहकी जडकी छाल,
कुडेकी छाल, सेमलकी जड, सालका गोद (राल),
धायके फूल, लोध और अनारये प्रत्येक समान भाग

लेकर चावलोके जलमे पीसकर एक २ कर्पके बडे
वनालेवे प्रतिदिन प्रातःकाल एक बडेको शहदमे मिला
कर भक्षण करे, इससे सर्वप्रकारके अतीसार नष्ट होते
है ॥ २०६ ॥ २०७ ॥ २०८ ॥

७ वत्सकाद्या गुटिका ।

वत्सकस्याऽमृतायाश्च द्वे पले प्रस्थ-
मौदकम् । श्रपयित्वा रसे तरिमम्
पादशेषेऽवतारिते ॥ २०९ ॥ अष्टौ
पलानि शक्रस्य यवांश्चूर्णीकृतानि
तु । शुद्धपाकं विदित्वा तु यथा व-
ह्वावतारितम् ॥ २१० ॥ सद्यः स-
र्वातिसारांश्च सर्वांश्च ग्रहणीगदान् ।
नाशयेद्दीपयेच्चान्निं कृष्णात्रेयस्य
शासनात् ॥ २११ ॥

कुडेकी छाल और गिलोयको दो पल लेकर एक
प्रस्थ जलमें पकावे जब पककर चौथाई भाग जल
शेष रहजाय तब उतार छान लेवे पश्चात् उसको चूल्हे
पर चढा कर उसमे शुद्ध इन्द्रजौका चूर्ण ८पल डाल
कर पकावे जब पककर गाढा होजाय तब उतारकर
शीतल होनेपर गोलिया बना लेवे । यह गोली सबप्रकारके
अतीसार और सबप्रकारकी संग्रहणीको नष्ट करती और
अभ्रिको संदीपन करती है । यह गुटिका कृष्णात्रेयकी
कही हुई है ॥ २०९ ॥ २१० ॥ २११ ॥

अंकोटगुटिका ।

पलमंकोटमूलस्य पाठां दार्वीश्च त-
त्समाम् । पिष्ट्वा तण्डुलतोयेन वटका-
नक्षसंभितान् ॥ २१२ ॥ छायाशुष्कां
पिबेत् क्षिप्रं पिष्ट्वा तंडुलवारिणा ।
वातपित्तकफप्रायान् द्वन्द्वजान् सा-
न्निपातिकान् ॥ हन्यात् सर्वानती-
सारान् गुटिकेयं प्रयोजिता ॥ २१३ ॥

अंकोल, पाह और दारुहल्दी इन प्रत्येकको चार
२ तोले लेकर चावलोके जलमे पीसकर एक २ तोले
की गोलियां बनाकर छायामे सुखादेवे । प्रतिदिन एक
गोली चावलोके जलके साथ सेवन करे । यह गोली
वात, पित्त, कफ, द्वन्द्वज और सन्निपातिक तथा सब
प्रकारके अतीसारोंको दूर करदेती है ॥ २१२ ॥ २१३ ॥

अपराजितावलेह ।

पलाद्धमरुणायस्तु द्विपलं कुटजस्य
च । केशराजस्य मूलं तु कर्षं तत्सर्व-
मेकतः ॥ २१४ ॥ संकुटच सलिलप्रस्थे
पक्त्वा पादस्थिते रसे।पूतेऽस्मिन्नर्धतः
खण्डं छागक्षीरं चतुष्पलम् ॥ २१५ ॥
बिल्वालिविषयोश्चूर्णं सुस्तस्येन्द्रयव-
स्य च । प्रत्येकमक्षमात्रं तु क्षिप्त्वा
पक्त्वा च भक्षयेत् ॥ २१६ ॥ शुद्धं
तदनुभुञ्जीत काञ्जिकाम्बुप्रसाधि-
तम् । माषगोक्षुरसिद्धं वा छागक्षी-
रं पिवेन्नरः ॥ ग्रहण्यतीसारहरो ले-
हाऽयमपराजितः ॥ २१७ ॥

अनीम २ तोले, कुडेकी छाल ८ तोले और रुकु-
भांगेरकी जड़ एक कर्ष प्रमाण लेवे, सबको एकत्र
कूटकर एक प्रस्थ जलमे पकावे जब पकते २ चौथाई
भाग जल जेप रहजाय तब उतार कर छान लेवे फिर
उसमे खाँड ३२ तोले, वकरीका दूध १६ तोले, बेल-
गिरी, अतीस, नागरमोथा और इन्द्रजौ इन प्रत्येकका
चूर्ण एक २ कर्ष डालकर पकावे जब पकवर जीतल
हो जाय तब अग्निका बलाबल विचार कर वमन विरे-
चनादिके द्वारा शुद्ध होकर भक्षण करे । अनुपान-
कांजीके जलमे सिद्ध किये हुए उडद अथवा वकरीके
दूधमे औंदाये हुए गोखरु पान करे। यह अवलेह सं-
दृणा और अतीसारको नष्ट करे है ॥२१४-२१७ ॥

षडङ्गघृत ।

वत्सकस्य च बीजानि दाव्याश्चैव
त्वशुत्तमा । पिप्पली शृङ्गवेरश्च लाक्षा
कङ्करोहिणी ॥ २१८ ॥ षड्भिरैते
घृतं सिद्धं पेयं मण्डविमिश्रितम् ।
अतिसारं जयेच्छीघ्रं त्रिदोषमपि
दारुणम् ॥ २१९ ॥

कुडेके बीज, वारुहलीकी छाल, पीपल, आर्द्रक,
लाग और कुटकी इन छ औषधियोंके काथ और
करकमे द्वारा घृतको सिद्ध करो। फिर इस घृतके खाँड
मिलाकर गोवन करनेसे त्रिदोषज वारुण अतीसार
नष्ट होता है ॥ २१८ ॥ २१९ ॥

कुटजादि घृत ।

कुटजत्वक्फलं लोभ्रं कृष्णादावीम-
होपथम् । कटुका चैति तैः सिद्धं घृतं
सर्वातिसारलुत ॥ २२० ॥

कुडेकी छाल, उन्द्रजौ, लोध, पीपल, वारुहली,
सोठ और कुटकी इनके काथ और करकके द्वारा
घृतको सिद्ध करके सेवन करे । यह सब प्रकारके अती-
सारको नष्ट करता है ॥ २२० ॥

सताङ्गघृत ।

दावीं सलाक्षाकटुका सविश्वी त्व-
कोटजा शक्रयवः सकृष्णः । एभि-
र्विषवां घृतमाशु ण्ति मंडन पीतं
सकलातिसारम् ॥ २२१ ॥

वारुहली, लाख, कुटकी, सोठ कुडेकी छाल,
इन्द्रजौ और पीपल इनके काथ और करकके द्वारा
घृतको सिद्ध करे । इसको मंडके साथ सेवन करनेसे
सब प्रकारका अतीसार नष्ट होता है ॥ २२१ ॥

महाबिल्वतैल ।

तुलां संकुटच बिल्वस्य पचेत्पादाव-
शेषितान् । सक्षीरं साधयेत्तैलं श्ल-
क्ष्णपिष्टैरिमैः समैः ॥ २२२ ॥ धातुकी
बिल्वकृष्टश्च रास्ना शुण्ठी पुनर्नवा ।
देवदारुर्वचा सुस्तं लोभ्रं मोचरसा-
न्वितम् ॥ २२३ ॥ मृद्वाग्निना साधितश्च
ग्रहण्यशोऽतिसारलुत । बिल्वतैलामि-
ति ख्यातं महदात्रेयपूजितम् ॥ २२४ ॥

सौ पल बेलके गूडेको लेकर कूट लेवे, फिर उसको
चोगुने जलमे पकावे जब चौथाई भाग जल जेप रह
जाय तब उतारकर छानलेवे फिर उसमे दूध और
तेल तथा धायके फूल, बेलगिरी, कूट, रायसन, सोठ,
पुनर्नवा, देवदारु, वच, नागरमोथा, लोध और मोच-
रस समान भाग लेकर वारीक पीसकर मिलादेवे ।
विधिपूर्वक मंद २ अग्निसे तेलको पकावे । यह तैल-
सग्रहणी, ववासीर और अतीसारको नष्ट करता है ॥
यह तैल-महत आत्रेयसे पूजित किया हुआ है ॥२२२
॥ २२३ ॥ २२४ ॥

ग्रहण्यशौविकारे ये स्त्रहाद्या उपक-
ल्पिताः । तेषु चात्र त्रयोक्तव्या
यथादोषं विजानता ॥ २२५ ॥

जो संग्रहणी और अर्शरोगमें घृत तैलादिक कहे
हैं, उनको यथादोषानुसार इस अतीसारमें प्रयोग
करना चाहिये ॥ २२५ ॥

वातपित्तातिसारके लक्षण ।

कृदादिभ्यो रसेः कुष्ठैः प्रवृद्धौ पित्त-
मारुतौ । व्यासाद्य ग्रहणीं नृणाम-
तीसारकरो स्मृतौ ॥ २२६ ॥ सश-
ब्दं फेनिलं सूक्ष्मं कषायोदकसन्नि-
भम् । पक्वान्तरसवर्णाभं हरिद्राप्र-
तिमं घनम् ॥ २२७ ॥ विष्मृत्रकाण्यं
सृजति सगूलं दाहपाकवान् । वि-
द्यात्तदाहशोषान्तवातपित्तातिसारि-
णाम् ॥ २२८ ॥

कटु आदि रसोको अत्यन्त सेवन करनेसे, वात
पित्त कुपित होकर वृद्धिको प्राप्त होजाते है । फिर वे
ग्रहणी कलामे प्राप्त होकर मनुष्योंको अतीसार उत्पन्न
करते है । जिससे पेटमें गुडगुड गन्ध हो, मल झागो-
दार, रूखा, काथके समान वर्णवाला, पक्की इमलीके
रसके समान या हल्दीके समान रंगवाला, भारी,
तथा विद्या और सूत्र काले रंगका, गूल और दाहयुक्त
उतरे, गुदा पक्कजात्र, दाह और शोष हो ये लक्षण
वातपित्तातिसारके जानने चाहिये ॥ २२६-२२८ ॥

वातपित्तातिसारकी चिकित्सा ।

लघुना पञ्चमूलेन पिप्पल्या सह धा-
न्यया । आहारो भिषजा योज्यः
सर्वदा हितभिच्छ्रुता ॥ २२९ ॥

लघुपंचमूल, पीपल और धनियाँ इन औषधियोंके
द्वारा सिद्ध हुआ आहार वातपित्तातिसारमें सदैव
प्रयोग करना चाहिये ॥ २२९ ॥

कटुफलं मधुकं लोभं त्वग्दाडिमफ-
लस्य च । वातपित्तातिसारघ्नं पिबे-
त्तण्डुलवारिणा ॥ २३० ॥

कायफल, मुँद्री, लोथ और अनारके फलका
बल्कल इनका कल्क बनाकर चावलोके जलके साथ
सेवन करे तो वातपित्तातिसार नष्ट होताहै ॥ २३० ॥

कलिङ्गकं वचा सुस्तं दारु सातिवि-
षासभम् । कल्कं तण्डुलतोयेन पिबे-
त्पित्तानिलाभयी ॥ २३१ ॥

इन्द्रजा, वच, नागरसाथा, देवदारु आर अतीस
इनका कल्क चावलोके जलके साथ पान करनेसे,
वातपित्तातिसार नष्ट होता है ॥ २३१ ॥

फेनिलं बहुशो रक्तं सकलं वेदना-
न्वितम् । विविधं सार्यमाणश्च वात-
पित्तातिसारिणाम् ॥ २३२ ॥

मल झागोदार, अधिकतर रुधिरका साव, अत्यन्त
वेदना और अनेक रंगके दस्तो का होना ये वातपित्ता-
तिसारके लक्षण जानने ॥ २३२ ॥

कफपित्तातिसारके लक्षण ।

कट्वम्ललवणस्निग्धगुरुमिष्टोपसेव-
नात् । श्लेष्मपित्ते प्रकुपिते घृष्टिं
संछाद्य देहिनाम् ॥ २३३ ॥ कषाय-
न्तं द्रवं स्निग्धं मन्दवेगं सवेदनम् ।
घनं शाल्मलिपिच्छाभं पद्मपत्रनिभं
क्वचित् ॥ २३४ ॥ पिच्छिलं शङ्खव-
र्णाभं रक्तविन्दुभिराचितम् । क्षुत्तृष्णे
चातिबहुले श्लेष्मपित्तातिसारिणाम्
॥ २३५ ॥

कटु (चरपरे), अम्ल (खट्टे), लवण (नम-
कीन), स्निग्ध (चिकने), गुरु (भारी) और मधुर
रसोको अधिकतर सेवन करनेसे कफ और पित्त
कुपित होकर जठराग्निको आच्छादित करलेते है तब
मनुष्योंके काथसदृश, पतला, स्निग्ध, मंदवेगवाला,
मंदपीडायुक्त, गाढा, समलके गोदकेसमान पिच्छिल,
कमलके पत्रके समान चिकना, शंखके समान उन्नत,
और लालविन्दुसंयुक्त मल एक क्षुब्ध और तृषा अ-
धिक लगती है । ये सब लक्षण कफपित्तातिसारमें
होतेहैं ॥ २३३ ॥ २३४ ॥ २३५ ॥

कफपित्तातीसारचिकित्सा ।

यथा दोषप्रशमनी दद्यादीपनपाचनी ।
यवागूर्बद्धदोषाणां श्लेष्मपित्तातिसा-
रिणाम् ॥ २३६ ॥

कफपित्तनाशक औषधियोंके द्वारा दोषन और पाचन ऐसी यवागू बनाकर कफपित्तातीसारमें देवे । यह दोषोंके विवन्धको दूर करनेवाली है ॥ २३६ ॥

शालिपर्णीबलाबिल्वैः पृथक्पर्णी च
साधिता । दाडिमाभ्लयुता पेया श्ले-
ष्मपित्तातिसारिणाम् ॥ २३७ ॥

शालिपर्णी, बेलगिरी, खिरैटी और पृश्निपर्णी इनके काथसे पेया बनाकर उसमें अनारका रस और इमलीका रस डालकर कफपित्तातीसारवाले रोगीको पिलावे ॥ २३७ ॥

कुटजातिविषा सुस्तं हरिद्रा पर्णि-
नीद्वयम् । सक्षौद्रशर्करं शस्तं श्लेष्म-
पित्तातिसारिणाम् ॥ २३८ ॥

इन्द्रजौ, अतीस, नागरमोथा, हल्दी, शालपर्णी, और पृश्निपर्णी इनके काथमें शहद और मिश्री मिलाकर पान करे तो कफपित्तातीसार नष्ट होता है २३८

सुस्ता सातिविषा मूर्वा वचा च
कुटजः समाः। एषां कषायः सक्षौद्रः
श्लेष्मपित्तातिसारहृत् ॥ २३९ ॥

नागरमोथा, अतीस, चुरनहार, वच और कुठेकी छाल इनके काथमें शहद मिलाकर पान करनेसे कफपित्तातीसार नष्ट होता है ॥ २३९ ॥

सुस्तं हरिद्रे मधुकं पृष्टपर्णी सबृक्ष-
कम् । मधुयुक्तं निहन्त्याशु श्लेष्मपित्त-
समुद्भवम् ॥ २४० ॥ सवेदनं सरक्तञ्च
पुरीषं सन्दधाति च । श्लेष्मपित्ताति-
सारघ्नं रक्तं चाशु नियच्छति ॥ २४१ ॥

नागरमोथा, हल्दी, दारुहल्दी, मुलैठी, पिठवन और कुठेकी छाल इनके काथमें शहद मिलाकर पान करे तो जीत्र ही कफपित्तातीसार नष्ट होता है तथा पीडायुक्त रुधिरसहित मलका गिरना बंद होता है ॥ २४० ॥ २४१ ॥

पाठावत्सकवीजानि चित्रकं विश्वभे-
पजम् । पिबेन्निःकाथ्य चूर्णानि कृत्वा
चोष्णेन वारिणा ॥ २४२ ॥ पित्तश्लेष्मा-
तिसारघ्नं ग्रहण्यां शूलजुद्धितम् ॥ २४३ ॥

पाठ, कुठेके बीज, चीता और मोठ इनका काथ अथवा इनका चूर्ण बनाकर उष्णजलके साथ पीवे तो कफपित्तातीसार, संग्रहणी और शूल रोग नष्ट होता है ॥ २४२ ॥ २४३ ॥

लोध्रं चन्दनयष्ट्याह्वदावीपाठाऽनि-
लोत्पलम् । तण्डुलोदकसंपिष्टं दी-
र्घवृन्तत्वगान्वितम् ॥ २४४ ॥ पूर्ववत्
कथिताद्स्माद्रसमादाय शतिलम् ।
अध्वक्तं पाययेच्चैतत् कफपित्तोत्तरा-
मये ॥ २४५ ॥

लोध, चन्दन, मुलैठी, दारुहल्दी, पाठ, रागोन, कमल और स्योनाककी छाल इन सबको चावलके जलके साथ पीसकर पूर्वोक्त पुटपाककी रीतिसे पकावे, जब शीतल हो जाय तब उसमेंसे रस निकालकर शहद मिलाकर पानकरे इससे कफपित्तातीसार नष्ट होता है ॥ २४४ ॥ २४५ ॥

वालकफादिके लक्षण ।

रसैः स्वादुकटुप्रायैरुभौ वातकफौ
नृणाम् । कुरुतस्तावतीसारं कुड्मौ
वह्निं निरस्य च ॥ २४६ ॥

स्वादुिष्ठ और कटुरसोको अधिकतर सेवन करनेसे मनुष्योंके वात और कफ कुपित होकर आग्नि-को शमन करके अतीसारको उत्पन्न करते हैं २४६ ॥
द्रवं सफेनं पुरीषं तत्तुल्यमानगन्धि-
कम् । सशब्दं वेदनावन्तं न चामं
परिषच्यते ॥ २४७ ॥ नित्यं गुडगु-
डायन्तं तन्द्रामूर्च्छाभ्रमकलमेः । प्र-
सक्तं सन्धिकटशूलजानुपृष्ठास्थिशू-
लिनः ॥ २४८ ॥

जिसमें पतला, झागोदार, आमगन्धवाला, शब्दयुक्त, वेदनासहित और आमयुक्त नित्य गुडगुडाहटके साथ

मल उत्तरता है एवं उसमें तन्द्रा, मूर्च्छा, भ्रम, ग्लानि तथा सन्धि, कमर, घुटने, जांघ और पीठकी हड्डिमें शलकी पीडा होती है ॥ २४७ ॥ २४८ ॥

चिकित्सा ।

धान्यपञ्चकसंसिद्धो धान्यविश्वकृतोऽथवा । आहारो भिषजा योज्यो वातश्लेष्मातिसारिणाम् ॥ २४९ ॥

धान्यपञ्चकके काथमें, अथवा धानियों और सोठके काथमें सिद्ध कियाहुआ आहार वातकफातीसारवाले मनुष्यको हितकारी है ॥ २४९ ॥

चिरविल्वं वचा दारु पञ्चकोलं पुनर्नवा । विदारिगन्धावृहतीविल्वाद्यं खण्डितान्यवान् । काथो यवागूर्यूषं वा वातश्लेष्मातिसारिणाम् ॥ २५० ॥

करंज, वच, देवदारु, पञ्चकोल, (पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, सोठ) पुनर्नवा, शालपर्णी, वडीकटेरी, वेलगिरी आदि औषधि और कुटे हुए जौ इनका काथ या यवागू अथवा यूप बनाकर वातकफातीसारवाले रोगीको पान करावे ॥ २५० ॥

विल्वं वत्सकबीजानि पाठा हिंशुशिवान्विता । वातश्लेष्मातिसारेषु कषायं पाचनं पिबेत् ॥ २५१ ॥

वेलगिरी, इन्द्रजौ, पाठ, हींग और हरड इनका काथ वातकफातीसारमें पाचनरूपसे पान करे २५१

चित्रकातिविषा मुस्तं बालविल्वं सनागरम् । वत्सकत्वक्फलं पथ्या वातश्लेष्मातिसारनुत् ॥ २५२ ॥

चीता, अतीस, नागरमोथा, कच्चा वेल, सोठ, कुडे-कोछाल इन्द्रजौ और हरड इनका काथ वातकफातीसारको नष्ट करता है ॥ २५२ ॥

पूतिदारुत्वचं रोध्रं कट्वद्गमथ नागरम् । दाडिमाम्लयुतं दद्याद्वातश्लेष्मातिसारिणाम् ॥ २५३ ॥

दुर्गन्धकरंज, देवदारुकी छाल, लोध, श्येनाक और सोठ इनके काथमें अनारका रस मिलाकर पीवे तो वातकफातीसार नष्ट होता है ॥ २५३ ॥

वातातिसारे यञ्चोक्तं पाचनं ग्राहि भेषजम् । तदत्रापि प्रयुञ्जीत सपित्तकफमारुते ॥ २५४ ॥

वातातीसारमें कहीहुई पाचन और ग्राही औषधि-पित्तयुक्त कफवातातीसारमें भी प्रयोग करे ॥ २५४ ॥

छर्द्यतीसारकी चिकित्सा ।

विल्वचूतास्थिनिर्यूहः पीतः सक्षौद्रशर्करः । निहन्याच्छर्द्यतीसारं वैश्वानर इवाहुतिम् ॥ २५५ ॥

वेलगिरी और आमकी गुठलीके रसको शहद और मिश्री मिलाकर पान करे तो वमन और अतीसार नष्ट होता है ॥ २५५ ॥

पटोलयवधान्याककाथः पेयः सुशीतलः । शर्करामधुसंयुक्तः छर्द्यतीसारनाशनः ॥ २५६ ॥

पटोलपात, इन्द्रजौ और धनियेके काथमें मिश्री और शहद मिलाकर पान करनेसे वमन और अतीसार नष्ट होता है ॥ २५६ ॥

प्रियंग्वंजनमुस्ताहं पाययेत्तु यथाबलम् । तृष्णातीसारछर्दिघ्नं सक्षौद्रं तण्डुलाम्बुना ॥ २५७ ॥

फूलप्रियंगु, रसोत और नागरमोथा इनके चूर्णको शहदमें मिलाकर चावलोके जलके साथ शरीरके बलानुसार सेवन करे तो तृषा, अतीसार और वमन दूर होती है ॥ २५७ ॥

कषायो भृष्टमुद्गस्य सलाजमधुशर्करः । छर्द्यतीसारतृद्दाहज्वरघ्नः संप्रकाशितः ॥ २५८ ॥

भुनीहुई मूँगके काथमें खीलें और मिश्री मिलाकर पीवे तो वमन, अतीसार, तृषा और ज्वरका नाश होता है ॥ २५८ ॥

जंब्वाम्रपल्लवोशीरवटशुङ्गावरोहकम् । रसः काथोऽथवा चूर्णं क्षौद्रेण

सह योजितम् ॥ २५९ ॥ छर्दिज्व-
रमतीसारं मूर्च्छां तृष्णाञ्च दुर्जयाम् ।
नियच्छत्यचिराद्भक्तच्युतिं वाऽनेकहे-
तुकाम् ॥ २६० ॥

जामुन और आमके नवीन पत्ते, खम और बड़के
अंकुर इनका स्वरस अथवा काथ किवा चूर्ण गहदके
साथ सेवन करे तो वमन, ज्वर, अतीसार, मूर्च्छा,
दुर्जय तृषा, अनेक कारणोंसे उत्पन्न हुआ अतीमार,
और रुधिरका गिरना ये सब दूर होते हैं ॥ २५९ ॥
॥ २६० ॥

शोथातिसारचिकित्सा ।

विडङ्गातिविषा सुस्तं दारुपाठा
कलिङ्गकम् । मरिच्येन समायुक्तं शो-
थातीसारनाशनम् ॥ २६१ ॥

वायविडंग, अतीस, नागरमोथा, देवदारु, पाठ
और इन्द्रजौ इनके काथमे काली मिरचोका चूर्ण
डालकर पान करनेसे शोथातीसार नाश होता
है ॥ २६१ ॥

किराताब्दाभृतोदीच्यसुस्तचन्दनधा-
न्यकैः । शोथातिसारहल्लासतृड्-
दाहज्वरनाशनः ॥ २६२ ॥

चिरायता, नागरमोथा, गिलाय, सुगन्धवाला,
मोथा, चन्दन और धनिया इनका काथ शोथातीसार,
उबकाई, तृषा, दाह और ज्वरनाशक है ॥ २६२ ॥

विश्वौषधस्य गर्भेण दशयूलजले शृ-
तम् । घृतं निहन्त्यतीसारं ग्रहणीं
पाण्डुकामलाम् ॥ २६३ ॥

सोठके कलक और दशमूलके काथके द्वारा घृतको
पकाकर सेवन करे तो अतीसार, संग्रहणी, पाण्डु
और कामलारोग नष्ट होता है ॥ २६३ ॥

शोक और भयातिसारकी ।

चिकित्सा ।

तेस्तेर्भावेः शोचतोऽल्पाशनस्य वा-
ष्पोष्मा वै वह्निभाविश्य जन्तोः ।
कोष्ठं गत्वा क्षोभयेत्तस्य रक्तं तच्चाध-
स्तात्काकणन्ती प्रकाशम् ॥ २६४ ॥

निर्गच्छेद्दे विड्विमिश्रं ह्यविड् वा

निर्गन्धं वा गन्धवच्चानिसारः । शो-
कोत्पन्नो दुश्चिकित्स्याऽतिमात्रं गेगो
वेद्यैः कष्ट एव प्रादिष्टः ॥ २६५ ॥

धन, पुत्र, मित्र, ली उन्मादि छष्ट वस्तुओंके नष्ट
होनेसे जब मनुष्य अत्यन्त खेद विन्न हो जाय तब
उसकी श्रुधा मग होकर उसके वाय (जलवातु)
और उष्मा (गर्मा) यह दोनों कंठमें जाकर
जठराग्निको मंद कर रुधिरको श्रांभिन करती हैं ।
फिर वह रुधिर गुजाके नमान लाल, गुदाके द्वारा
मलमिश्रित अथवा मलगहित दुर्गन्धमहित अथवा
विना गन्धवाले दस्तके साथ आताहै उसको शोकाती-
सार कहते हैं । यह अत्यन्त दुश्चिकित्य वैद्योन् कष्ट
साध्य है ॥ २६४ ॥ २६५ ॥

भयशोकसमुद्भूतो जैयो वातातिसा-
रवत् । तयोर्वातहरी काय्या हर्षणा-
श्वासनैः क्रिया ॥ २६६ ॥

भयसे और शोकसे जो उत्पन्न हुए अतीसार
उनकी चिकित्सा वातातीसारके समान करे । तथा
वातनाशक औषधियों, आनन्दजनक वस्तुओं और
धीरजके द्वारा उनको शमन करे ॥ २६६ ॥

विषार्शःकृमिसंभूते हिता चोभय-
शर्षदा ॥ २६७ ॥

विग अर्श और कृमिसे उत्पन्न हुए अतीसारमें
हितकारक और सुखकारक दोनों प्रकारकी चिकित्सा
करे ॥ २६७ ॥

कल्याणावलेह ।

शर्कराधातुकीलोष्टैः पाठारलुकपि-
प्ली । समङ्गाभिर्मोचरसपद्मकेसर-
संयुतैः ॥ २६८ ॥ अर्शः प्रभावकृमिजं
विरुद्धपानान्नदोषसम्भूतम् । अति-
सारगर्थं शशयति लेहः कल्याणको
नाम्ना ॥ २६९ ॥

मिश्री, धातुके फूल, लोष्ट, पाठ, ज्यानाक, पीपल,
मज्जीठ, मोचरस और कमलकेसर इन सबको समान
भाग लेकर विधिपूर्वक अवलेह बनावे । यह कल्याण
नामक अवलेह ववासीर और कृमिरोगसे उत्पन्न हुए
तथा विरुद्ध अन्नपानके सेवन करनेसे उत्पन्न हुए
अतीसारको शमन करता है ॥ २६८ ॥ २६९ ॥

दीप्ताग्निर्बहुदोषो यो विबन्धं वाति-
सार्यते । विडङ्गत्रिफलाकृष्णाक-
षायैस्तं विरेचयेत् ॥ ३७० ॥

दीप्ताग्नि और बहुत दोषयुक्त अतिसारवाले रोगी
के विबन्ध सहित मल उतरे तो वायुविडंग, त्रिफला
और पीपल इनका काथ पिलाकर विरेचन करावे
॥ २७० ॥

क्षुत्क्षामस्य विरिक्तस्य युञ्ज्यात्पेयां
विचक्षणः । भेषजैर्मारुतघ्नैश्च दीपनैः
सप्रकल्पिताम् ॥ २७१ ॥

जिसके क्षुधाकी व्याकुलतासे दस्त होने लगे,
उसको वातनाशक दीपन औषधियोंके द्वारा सिद्ध
कीहुई पेया पान करनेको देवे ॥ २७१ ॥

अन्नाजीर्णात्प्रदृताः क्षोभयन्तः कोष्ठं
दोषा धातुसङ्घातमलांश्च । नानावर्णं
नैकशः सारयन्ति शूलोपेतं षष्ठमेनं
वदन्ति ॥ २७२ ॥

भोजन किये हुए अन्नके अजीर्ण होनेसे, वाता-
द्विदोष क्षोभित होकर अपने मार्गको छोड़कर, कोठे-
में जाकर ओर कोठेको विगाड कर रस रक्तादि
धातु और मलादिको गुदाके द्वारा निकालते हैं वह
अनेकरंगका और शूलयुक्त होता है उसको छटा
आमातीसार कहते हैं ॥ २७२ ॥

तत्रापि वमनं कार्यं लङ्घनं च यथा-
क्रमम् । शूलानाहप्रसेकान्तं वामये-
दतिसारिणाम् ॥ २७३ ॥ पिप्पलील-
वणाभ्याश्च साधितेन जलेन वा ।
विश्वोदीच्योदकं पानं लङ्घनं वापि
शस्यते ॥ २७४ ॥ पिप्पल्यादिः प्र-
थोक्तच्यो घृषः सह षडादिभिः ॥ २७५ ॥

इसमें यथाक्रमसे वमन और लंघन कराने चाहिये
तथा शूल, आनाह और प्रसेक रोगको जमन करनेके
लिये पीपल और लवणके द्वारा सिद्ध किये हुए जल
से वमन करावे फिर सोठ और सुगन्धवाला इनके
काथको पीना और लंघन करना हितकारी है तथा
पिपल्यादिगणकी औषधियोंके साथ पडङ्गादि घृष
प्रयोग करना चाहिए ॥ २७३ ॥ २७४ ॥ २७५ ॥

आमपाचनविधि ।

नागरातिविषा मुस्तं हिंशुवत्सकचि-
त्रकाः । घनतेजोवतीपाठापिप्पली-
न्द्रयवाः समम् ॥ २७६ ॥ सैन्धवं
कौटजं बीजं वचा कटुकरोहिणी ।
विडं पाठामतिविषां कुटजं विश्वभे-
षजम् ॥ २७७ ॥ एलाकुटजबीजानि
लोभ्रं सावरकं न्यसेत् । वत्सकाति-
विषाशुण्ठीबिल्वहिंशुयवांबुदाः ॥
॥ २७८ ॥ श्लोकार्द्रविहिता योगाः
षडेते पाचना मताः । उष्णाम्बुम-
द्यधान्याम्लैः पीता वा श्लक्ष्णचूर्णि-
ताः ॥ २७९ ॥

साठ, अतिस, नागरमोथा, हीग, कुडकी छाल
और चीता १, नागरमोथा, तेजवल, पाठ, पीपल
और इन्द्रजौ २, सेधानोन, इन्द्रजौ, वच और कुटकी
३, विडनमक, पाठ, अतीस, कुडकी छाल और सोठ
४, इलायची, इन्द्रजौ और सफेद लोध ५, क्वा
कुडकी छाल, अतीस, सोठ, बेलगिरी, हीग, इन्द्रजौ
और नागरमोथा ६, इन छ' योगोमेसे किसी एकके
काथको अथवा किसी एकके चूर्णको गरमजल, मदिरा
या धानोकी कर्जीके साथ पान करे तो आम पचकर
आमातीसार दूर होता है ॥ २७६—२७९ ॥

वायुः प्रवृद्धो निचितं बलासन्नुदत्य-
धस्तादाहिताशनस्य । प्रवाहनोऽल्पं
बहुशो मलाक्तं प्रवाहिकां तां प्रवद-
न्ति तज्जाः ॥ २८० ॥

अहित भोजन करनेवाले मनुष्यके वृद्धिको प्राप्त
वायु संचितकफको मलके साथ बारबार गुदाके द्वारा
निकालता है ओर उसमें कठिनतासे पीडायुक्त थोडा २
दस्त आता है उसको प्रवाहिका रोग कहते हैं ॥ २८० ॥

प्रवाहिका वातकृता सशूला पि-
त्तात्सदाहा सकफा कफाच्च । सशो-
णिता शोणितसम्भवाच्च ताः स्नेह-
रूक्षप्रभवा मतास्तु ॥ २८१ ॥

वात-प्रवाहिकामे शूल होता है, पित्तजप्रवाहिका-
में दाह होती है, कफकी प्रवाहिकामे कफ आता है
और रुधिरकी प्रवाहिकामे रुधिर आता है, यह प्रवा-
हिकारोग स्नेह और रुक्ष पदार्थोंके सेवन करनेमें
उत्पन्न होता है ॥ २८१ ॥

तासामतीसारवदादिशेच लिङ्गं क्रमं
श्यामविषकृताश्च ॥ २८२ ॥ तैलं
सर्पिर्दधि क्षौद्रं सिता विश्वं सफा-
णितम् । सर्वमालोड्य पातव्यं सद्यो
निर्वाहिकां जयेत् ॥ २८३ ॥

इस प्रवाहिकाके विशेष लक्षण क्रमसे अतिसारकी
आम और पक्कावस्थाकी समान जानने चाहिए ।
तेल, घी, दही, गहद, मिश्री, सोठका चूर्ण और राव
इन सबको एकत्र मिलाकर पान करनेसे प्रवाहिका
रोग दूर होता है ॥ २८२ ॥ २८३ ॥

कल्कः स्याद्बालविल्वानां तिलक-
ल्कश्च तत्समः । दध्नः सारोऽम्लस्ने-
हाढ्यः सद्यो हन्यात्प्रवाहिकाम् ॥ २८४ ॥

कच्चे बेलका कल्क और उसके समान तिलका
कल्क, दहीकी मलाई, खटाई घी और तेल इन
सबको एकत्र मिलाकर सेवन करे तो तत्काल प्रवा-
हिका रोग नष्ट होता है ॥ २८४ ॥

बलाविल्वं गुडं तैलं पिप्पली विश्व-
भेषजम् । लिह्याद्वातप्रतिहते सशूले
सप्रवाहिके ॥ २८५ ॥

खिरैटी, बेलगिरी, गुड, तेल, पपिल और सोठ
इन सबको एकत्र पीसकर लेह बनाकर सेवन करे तो
शूलयुक्त वातजप्रवाहिका रोग नष्ट होता है ॥ २८५ ॥

विल्वपेशी गुडं लोध्रं तैलं मरिचयो-
जितम् । लीढ्वा प्रवाहिकाक्रान्तः
क्षिप्रं सुखमवाप्नुयात् ॥ २८६ ॥

बेलगिरी, गुड, लोध, तेल और काली मिरच इन
सबको एकत्र पीसकर भक्षण करे तो प्रवाहिका
रोग आराम होता है ॥ २८६ ॥

पयसा पिप्पलीकल्कः पीनो वा म-
ग्निचोद्भवः । त्र्यहान्निर्वाहिकां हन्ति
चिरकालानुबन्धिनीम् ॥ २८७ ॥

पीपलके कल्कको अथवा कालामिर्चोंके कल्कको
दूधके साथ पान करनेमें बहुत दिनोंकी प्रवाहिका
तीन दिनमें नष्ट होती है ॥ २८७ ॥

धातकीवद्रीपत्रं कपित्थरसमाक्षि-
कम् । सलोध्रमेकतो दद्यात्पिबेन्निर्वा-
हिकादितः ॥ २८८ ॥

धातके फूल, बेरीके पत्ते, कथका रस, गहद,
लोधका चूर्ण और दही इन सबको एकत्र करके
प्रवाहिका रोगसे पीडित पान करे तो प्रवाहिका
रोग नष्ट होता है ॥ २८८ ॥

त्र्यूषणाद्य वृत ।

त्र्यूषणं त्रिफला मुस्तं चित्रको ह-
स्तिपिप्पली । विल्वं कर्कटिका हिं-
र्विडङ्गं सनिदग्धिकाम् ॥ २८९ ॥ वृत-
प्रस्थं पचेदेभिर्गवां मूत्रे चतुर्गुणे । त-
त्प्रयोगं पिबेत्कोलं हन्यात्तेन प्रवा-
हिकाम् ॥ २९० ॥

त्रिकुटा, त्रिफला, नागरमोथा, चीता, गजपीपल,
बेलगिरी काकडाशिगी, हींग, वायविडंग और केटरी
इनके काथ और चौगुने गौमूत्रके द्वारा प्रस्थ वृतको
सिद्ध करे । प्रतिदिन इससे १ तोला खानेसे यह
प्रवाहिका रोगको नष्ट करता है ॥ २८९ ॥ २९० ॥

पिच्छावस्ति ।

यवाः सक्तुश्च लाजानां मूलं पुष्पश्च
शाल्मलेः । न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थ-
शुङ्गाश्च द्विपलोन्मिताः ॥ २९१ ॥
त्रिप्रस्थे सलिलस्यैतत्क्षीरप्रस्थं विपा-
चयेत् । क्षीरशेषं कषायश्च पूतं कृ-
त्वा क्षिपेदयम् ॥ २९२ ॥ कल्कः
शाल्मलिनिर्य्यासः समङ्गा चन्द-
नोत्पलम् । वत्सकस्य च बीजानि
प्रियंगुः पद्मकेशरम् ॥ २९३ ॥ पि-

च्छावास्तिरियं सिद्धा सघृतक्षौद्रश-
र्करा । प्रवाहिकागुदभ्रंशरक्तस्त्राव-
ज्वरापहा ॥ २९४ ॥

जौ, खीलोके सत्तू, सेमलकी जड़ और फूल, बड, गूलर और पीपलके अंकुर ये सब दो पल, तीन प्रस्थ जल और एक प्रस्थ दूध लेकर सबको विधिपूर्वक पकावे जब पककर केवल दूध बाकी रहजाय तब उतारकर छानलेवे । फिर उसमें सेमलका गोद, मजीठ, चन्दन, कमल, इन्द्रजौ, फूलप्रियंगु और कमलकेशर इनका कल्क मिलाकर पकावे जब पककर गाढा हो जाय तब उतारलेवे इसको पिच्छा बस्ति कहते है । इसको घी, शहद और मिश्री मिलाकर वास्तिद्वारा प्रयोग करे । यह प्रवाहिका, गुदभ्रंश, रुधिरका गिरना और ज्वरका नाश करती है ॥ २९१-२९४ ॥

पुरीषक्षयकी चिकित्सा ।

दीप्ताग्निनिष्पुरिषो यः सार्यते फेनि-
लं शकृन् । स पिबेत् फाणितं शुण्ठी-
दधितैलसमन्वितम् ॥ २९५ ॥

जिस दीप्ताग्निवाले मनुष्यके ज्ञागयुक्त और विष्ठा-
रहित दस्त आता हो वह राव, सोठ, दही और तेल
इनको एकत्र मिलाकर सेवन करे ॥ २९५ ॥

दध्ना ससारेण समाक्षिकेण भुञ्जीत
निःसारिकपीडितस्तु । सुतप्तकुप्य-
कथितेन वापि क्षरिण शीतैः
मधुप्लुतन ॥ २९६ ॥

दहीकी मलाईमें शहद मिलाकर भक्षण करे
अथवा जस्तको जलमें बुझाकर उसमें गीतल दूध
और शहद डालकर पान करे ॥ २९६ ॥

बलाविश्वशृतं क्षीरं गुडतैलानुयो-
जितम् । दीप्ताग्निं पाययेत्प्रातः सुखदं
वर्चसः क्षये ॥ २९७ ॥

खिरैटी और सोठको दूधमें औटाकर उसमें गुडे
और तेल मिलाकर दीप्ताग्निवाले पुरुषको प्रातःकाल
पिलावे तो पुरीषक्षय दूर होता है ॥ २९७ ॥

शशमांसं सहाधिरं समंगा सघृतं द-
धि । विपाच्य खादेत्सर्वेच्च मृद्वन्नं
शकृतः क्षये ॥ २९८ ॥

खरगोशका मांस और रुधिर, मजीठ, घी और
दही इन सबको पकाकर सेवन करे । और इसके
ऊपर मृदु आहार करे यह पुरीषक्षयको दूर करता
है ॥ २९८ ॥

विवन्धवातविट्शूलपरीतः समवा-
हिकः । सरक्तपित्तश्च पयः पिबेत्तृष्णा-
समन्वितः ॥ २९९ ॥

वाताविवन्ध, मलरोध, शूलयुक्त प्रवाहिका, रक्त-
पित्त और तृषासे पीडित रोगी दूध पीवे ॥ २९९ ॥

जीर्णैः मृतोपमं क्षीरमतीसारं सुयो-
जितम् । स्वचिरोत्थे च तत्पेयमपां
भागैस्त्रिभिः शृतम् ॥ ३०० ॥

जीर्ण अतीसारमें दूध अमृतके समान है, एक भाग
दूधको तीन भाग जलमें औटावे, जब पानो जलजाय
केवल दूध ही बाकी रहजाय तब इसको बहुत दिनोंके
पुराने अतीसारमें पान करे ॥ ३०० ॥

असाध्य लक्षण ।

पक्वजाम्बवसंकाशं यकृत्पिंडानिभं
तनु । घृततैलवसामजावेशवारं
पयो दधि ॥ ३०१ ॥ मांसधावनतो-
याभं कृष्णं नीलारुणप्रभम् । कर्बुरं
मेचकं स्निग्धं चन्द्रकोपगतं घनम् ॥
॥ ३०२ ॥ कुणपं मस्तुलङ्गाभं सगन्धं
कथितं बहु । तृष्णादाहभ्रमश्वासहि-
क्वापार्थास्थिशूलिनम् ॥ ३०३ ॥ सं-
मूर्च्छाऽरतिमोहैश्च युक्तं पक्ववलीगु-
दम् । प्रलापयुक्तश्च भिषग्वर्जयेदति-
सारिणम् ॥ ३०४ ॥

जिसका मल पक्वो जामुनके समान नीला, यकृतके
समान कृष्ण और लोहित हो एवं घृत, तेल, चर्बी,
मज्जा हड्डीकी मीग, वेणुवार (मसालेके जलके) समान
दूध, दही और मासके धोवनके समान, काला, नीला,

लाल, त्रिविचित्र अनेक रंगका, थोडा काला और
रुक्ष चिकना मथूरपुच्छ चन्द्रके समान रंगवाला,
गाढा, मुरदेके समान गंधवाला मस्तुलंग (मस्तकका)
मज्जा के समान, और बहुत दुर्गन्धवाला ऐसा दस्त
आता है उस रोगोके तृपा, दाह, भ्रम, ज्वास, हिचकी
पसालियामे शूल, मूर्च्छा, वैचैनी और मोह हो, गुदाकी
वली पक जाय और प्रलाप करे तो इन लक्षणोवाले
अतीसाररोगीको त्याग देवे ॥ ३०१—३०४ ॥

असंवृतगुदं क्षीणं शूलाध्मानमुपद्र-
तम् । गुदे पक्के गतोष्माणमतिसारि-
णमुत्सृजेत् ॥ ३०५ ॥

जिस क्षीणमनुष्यकी गुदा मल उतरनेके बाद बंद
न हो, शूल और आध्मान इत्यादि उपद्रव हो, गुदा
पक जाय और उसके शरीरमे गरमी न रहे वैद्य ऐसे
अतीसार रोगीको त्यागदेवे ॥ ३०५ ॥

श्वासशूलपिपासार्त्तं क्षीणं ज्वरनि-
पीडितम् । विशेषण नरं वृद्धमति-
सारो विनाशयेत् ॥ ३०६ ॥

श्वास, शूल, तृपा, ज्वरसे पीडित और क्षीण इन
उपद्रवोसहित और विशेष कर वृद्ध मनुष्यको अती-
सार नष्ट करदेता है ॥ ३०६ ॥

लिङ्गैरसाध्यो ग्रहणीविकारो यैस्तै-
रतीसारगदो न सिध्येत् । वृद्धस्य
नूनं ग्रहणीविकारोऽहत्वा तनुं नैव
निवर्तते तु ॥ ३०७ ॥

जिनलक्षणोसे अतीसार रोग असाध्य होता है
और वही लक्षण संग्रहणीमे हो तो संग्रहणी भी असा-
ध्य जाननी। विशेष कर वृद्ध मनुष्यके उत्पन्न हुआ
संग्रहणीरोग प्राणोको लिये विना नहीं छोडता ३०७ ॥

शोथं शूलं ज्वरं मूर्च्छां श्वासं कासम-
रोचकम् । छर्दिं तृष्णांश्च हिकांश्च
दृष्ट्वातीसारिणं त्यजेत् ॥ ३०८ ॥

वैद्य-सूजन, शूल, ज्वर, मूर्च्छा, ज्वास, खाँसी,
अरुचि, वमन, तृपा और हिचकी इन लक्षणोसे युक्त
अतीसारवाले रोगीको त्याग देवे ॥ ३०८ ॥

हस्तपादांगुलीसन्धिप्रपाको मूत्रवि-
डग्रहः । पुरीषस्योष्णतातीव कोष्ठ-
भेदो न जीवति ॥ ३०९ ॥

जिसकी हाथ और पाँवोंकी अंगुलियोंकी सन्धि
पकती हों, मूत्र और मलका अवरोध हो एवं मलमें
अत्यंत उष्णता हो तो ऐसा अतीसारवाला रोगी नहीं
जीता है ॥ ३०९ ॥

विगत अतीसारके लक्षण ।

यस्योच्चारं विना मूत्रं सम्यग्वायुश्च
गच्छति । दीप्तान्नेर्लघुकोष्ठस्य स्थिन-
स्तस्योदरामयः ॥ ३१० ॥

जिस मनुष्यके मूत्र उतरनेके समय मल न आवे,
वायु शुद्धरोतिसे सचार करे, अग्निदीपन हो और
कोठा हलका हो जाय उसके अतीसार आरोग्य हुआ
जानना ॥ ३१० ॥

स्नानावगाहमभ्यंगं गुरु म्निग्धश्च भो-
जनम् । व्यायाममग्निसन्तापयती-
सारो विवर्जयेत् ॥ ३११ ॥

स्नान, अवगाहन, अभ्यंग कर्म, भारी और स्निग्ध
पदार्थोंका भोजन, व्यायाम और अग्निका संताप इन
सबको अतीसाररोगी त्याग देवे ॥ ३११ ॥

इति अतीसाररोगचिकित्सा ।

अथ ज्वरातिसारचिकित्सा ।



ज्वरातिसारयोर्दुक्तं निदानं यत्पृथ-
क्पृथक् । तस्माज्वरातिसारस्य तेन
नात्रोदितः पुनः ॥ ३१२ ॥

ज्वर और अतीसारका जो पृथक् २ निदान कहा है
उसीके अनुसार ज्वरातीसारका निर्णय करना चाहिये
इन रोगोका पृथक् २ निदान तो कहही चुके है इस-
कारण यहां ज्वरातीसारका फिर निदान नहीं कहा
॥ ३१२ ॥

च्यवमानं ज्वरोत्सृष्टमुपेक्षत मलं
सदा । अतिप्रवर्तमानन्तु साधयेत्स
चिकित्सकैः ॥ ३१३ ॥

ज्वरके मल चलायमान हुआ तो उसकी सदैव
उपेक्षा करनी चाहिये और जो अधिकतर दस्त होने
लगे तो वैद्योको उत्तम विधिसे चिकित्सा करनी
चाहिये ॥ ३१३ ॥

ज्वरातिसारयोरुक्तं भेषजं यत्पृथक्पृ-
थक् । न तन्मिलितयोः कार्यमन्यो-
न्यं वर्द्धते घनः ॥ ३१४ ॥ अतस्तौ अति-
कुर्वीत विशेषोक्तचिकित्सकैः ॥ ३१५ ॥

ज्वर और अतीसारमे जो पृथक् औषधियाँ कही
है, उनको मिलाकर ज्वरातीसारमे कदापि प्रयोग न
करे क्योंकि, ज्वरनाशक औषधि प्रायः भेदक और
अतीसारनाशक तथा मलस्तम्भक होती है इस लिए
दोनों परस्पर रोगोको बढ़ानेवाली है इस कारण
ज्वरातीसारमे जो विशेष चिकित्सा कही है वही
करनी चाहिये ॥ ३१४ ॥ ३१५ ॥

लङ्घनमुभयोर्युक्तं मिलिते कार्ये
विशेषतस्तदनु । उत्पलषष्टिकसिद्धं
लाजामण्डादिकं पेयम् ॥ ३१६ ॥

ज्वर और अतीसार इन दोनों रोगोमे प्रथम लंघन
कराना कहा है, इसी प्रकार ज्वरातीसारमे भी प्रथम
लंघन करावे पश्चान् कमल और साठीकी खीलोका
सिद्ध किया हुआ मंडादिक देवे ॥ ३१६ ॥

पृश्निपर्णीबलाविल्वनागरोत्पलधा-
न्यकैः । ज्वरातिसारे पेयां वा पिबे-
त्साम्लां शूतां नरः ॥ ३१७ ॥

पिठवन, खैरटी, वेलगिरी, सोठ, कमल और
धनियाँ इनकी पेया बनाकर अनारदानेका रस मिला
कर पीवे ॥ ३१७ ॥

धातकीकाथसंसिद्धा विश्वभेषजसं-
स्कृता । दाडिमाश्रयुता पेया ज्वरा-
तीसारशूलिनाम् ॥ ३१८ ॥

घायके फूलोके काथ, सोठके चूर्ण और अनारके
द्वारा रस सिद्ध की हुई पेया ज्वरातीमार और शूलको
नष्ट करती है ॥ ३१८ ॥

एरण्डमूलयवगोक्षुरकारनालैः स्वित्रां-
लिहन्ति विजयां मधुना युतां ये ।
तेषां प्रणाशमुपयान्त्युदरामयास्तु सर्वे
सशूलविषमज्वरकासयुक्ताः ॥ ३१९ ॥

जो अंडकी जड़, जौ और गोखरू इनके काथ
ओर उसके कांजीमे पकाई हुई भागको गहदमे मिला

कर सेवन करे तो सर्वप्रकारके उदररोग, सब प्रकारके
शूल, खाँसी और विषमज्वर नष्ट होता है ॥ ३१९ ॥

कणाकरिकणालाजागणो मधुसिता-
युतः । पीतो ज्वरातिसारस्य तृष्णा-
वन्मोश्च नाशनः ॥ ३२० ॥

पीपल, गजपपिल और खीले, इनके काथमे गहद
एवं मिश्री मिलाकर सेवन करे तो ज्वरातीसार तृषा
और वमन नष्ट होता है ॥ ३२० ॥

पाठेन्द्रयवभूनिम्बमुस्तर्पटकामृता ।
जयत्याममतीसारं ज्वरञ्च समहौ-
षधम् ॥ ३२१ ॥

पाठ, इन्द्रजौ, चिरायता, नागरमोथा, पित्तपापडा
और गिलोय इनका काथ आमयुक्त अतीसार और
ज्वरको नष्ट करता है ॥ ३२१ ॥

नागरादि ।

नागरातिविषामुस्तभूनिम्बामृतव-
त्सकैः । सर्वज्वरहरः काथः सर्वाती-
सारनाशनः ॥ ३२२ ॥

सोठ, अतीस, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय
और इन्द्रजौ इनका काथ सबप्रकारके ज्वरो और
सबप्रकारके अतीसारोको नष्ट करता है ॥ ३२२ ॥

हीबिरादि ।

हीबिरातिविषामुस्ताविल्वनागरधा-
न्यकम् । पिबेत्पिच्छाविवन्धघ्नं शूल-
दोषायपाचनम् । सरक्तं हन्त्यतीसारं
सज्वरं वाथ विज्वरम् ॥ ३२३ ॥

सुगन्धवाला, अतीस, नागरमोथा, वेलगिरी सोठ
और धनियाँ इनका काथ, विवन्ध और शूल दोषको
नष्ट करता है तथा आगोसहित आमको पचाता है
एवं रक्तातीसार, ज्वरातीसार, अथवा ज्वररहित
अतीसारको भी दूर करता है ॥ ३२३ ॥

गुडूच्यादि ।

गुडूच्यातिविषाधान्यशुण्ठीविल्वाब्द-
वालकैः । पाठाभूनिम्बकुटजचन्दनो-

शर्करपट्टैः ॥ ३२४ ॥ पिवेत्कषायं सक्षौ-
द्रं पिपासादाहनाशनम् । ज्वरातिसा-
रसन्तापं नाशयेद्विकल्पतः ॥ ३२५ ॥

गिलोय, अतीस, धनियॉ, सोठ, वेलगिरी, नागर-
मोथा, सुगन्धवाला, पाठ, चिरायता, कुडकी छाल,
चन्दन, खस और पित्तपापडा इनका काथ शहद
मिलाकर पान करे तो पियास, दाह और ज्वराती-
सारका संताप नष्ट होता है ॥ ३२४ ॥ ३२५ ॥

वत्सकस्य फलं दारु रोहिणी गज-
पिप्पली । श्वदंष्ट्रा पिप्पली धान्यं बि-
ल्वं पाठा यवानिका ॥ ३२६ ॥ द्रवि-
तौ सिद्धयोगौ तौ श्लोकाद्धेनाभिभा-
षितौ ॥ ज्वरातिसारशमनौ विशेषा-
दाहनाशनौ ॥ ३२७ ॥

इन्द्रजौ, देवदारु, कुटकी और गजपीपल १,
अथवा गोखरू, पीपल, धनियॉ, वेलगिरी, पाठ और
अजवायन २ इन दोनोंमेसे किसी योगका काथ बना
कर पान करे तो ज्वरातीसार शमन होता है और
विशेष कर दाह नष्ट होती है ॥ ३२६ ॥ ३२७ ॥

उत्पलं दाडिमत्वचं पद्मकेसरमेव च ।
पिवेत्तंडुलतोयेन ज्वरातीसारनाश-
नम् ॥ ३२८ ॥

कमल, अनारकी छाल, कमलकेशर, इनके चूर्ण
को चावलोके जलके साथ पीवे तो ज्वरातीसार नष्ट
होता है ॥ ३२८ ॥

उशीरं बालकं मुस्तं धान्यकं विश्व-
मेव च । समङ्गा धातकी लोधं बिल्वं
दीपनपाचनम् ॥ ३२९ ॥ हन्त्यरोच-
कपिच्छामं विविधं सातिवेदनम् ।
सशोणितमतीमारं सज्वरं वाथ वि-
ज्वरम् ॥ ३३० ॥

खस, सुगन्धवाला, नागरमोथा, धनियॉ, सोठ,
लज्जावंती, धायके फूल, लोध और वेलगिरी इनका
काथ दीपन और पाचन है तथा अरुचि, पिच्छल,
आम नानाप्रकारकी पीडासहित रक्तातीसार, ज्वरस-
हित अथवा बिना ज्वरवाले अतीसारको नष्ट करता
है ॥ ३२९ ॥ ३३० ॥

बिल्ववालकभृनिम्बगुडूचीधान्यना-
गरैः । कुटजाब्दयुतः काथो ज्वरा-
तीसारशूलनुत् ॥ ३३१ ॥

बेलगिरी, सुगन्धवाला, चिरायता, गिलोय,
धनियॉ, सोठ, कुडकी छाल और नागरमोथा इनका
काथ ज्वरातीसार और शूलको नष्ट करता है ३३१

समङ्गा धातकीपुष्पं केशरं नीलमु-
त्पलम् । तण्डुलोदकसंयुक्तं ज्वराती-
सारनाशनम् ॥ ३३२ ॥

लज्जावंती, धायके फूल, नागकेशर और नीलि
कमल इनको एकत्र पीसकर चावलोके जलके साथ
सेवन करनेसे ज्वरातीसार नष्ट होता है ॥ ३३२ ॥

नागरातिविषामुस्तागुडूचीविश्वव-
त्सकैः । कषायः पाचनः शोथज्वरा-
तीसारवारणः ॥ ३३३ ॥

सोठ, अतीस, नागरमोथा, गिलोय और कुडकी
छाल, इनका काथ पाचन है एवं सूजन, ज्वर और
अतीसारको हरनेवाला है ॥ ३३३ ॥

मुस्तकातिविषाशुण्ठवित्सकाभयति-
क्तकैः । सर्वातिसारहृत्साससर्वशो-
थज्वरापहः ॥ ३३४ ॥

नागरमोथा, अतीस, सोठ, इन्द्रजौ, हरड और
चिरायता इनका काथ सब प्रकारके अतीसार, उब-
काई और सर्व प्रकारकी सूजन तथा ज्वरको दूर
करनेवाला है ॥ ३३४ ॥

काथेन दशमूलस्य विश्वमक्षयुगं
पिवेत् । ज्वरे चैवातिसारे च सशो-
थे ग्रहणीगदे ॥ ३३५ ॥

दशमूलके काथके साथ दो तोले सोठके चूर्णको
सेवन करे तो ज्वर, अतीसार, सूजन और संग्रहणी
रोग नष्ट होता है ॥ ३३५ ॥

मुस्तकविश्वातिविषागोपीभूनिम्ब-
वत्सककाथः । मकरन्दगर्भयुक्तो ज्व-
रातिसारं जयेद्वोरम् ॥ ३३६ ॥

नागरमोथा, सोठ, अतीस, सारिवा, चिरायता और कुंडकी छाल इनके काथमें कमलकेशरका चूर्ण मिलाकर पान करे तो ज्वरातीसार नष्ट होता है ३३६

नागरामृतभूनिम्बविल्वामलकवत्स-
कैः । समुस्तातिविषोशीरैर्ज्वरातीसा-
रहज्जलम् ॥ ३३७ ॥

मोठ, गिलांय, चिरायता, बेलगिरी, आमलं, इन्द्रजौ, नागरमोथा, अतीस और खस इनका काथ ज्वरातीसारको शांत करता है ॥ ३३७ ॥

व्योषादि चूर्ण ।

व्योषं वत्सकबीजश्च निम्बभूनिम्ब-
मार्कवम् । चित्रकं रोहिणीं पाठां
दावीमतिविषां वचाम् ॥ ३३८ ॥ ल-
क्षणं चूर्णीकृतं सर्वं तत्तुल्यां वत्सक-
त्वचम् । सर्वमेकत्र संयोज्य प्रपिबे-
त्तंडुलाम्बुना ॥ ३३९ ॥ सक्षौद्रं वा
पिबेदेतत्पाचनं ग्राहि दीपनम् ।
तृष्णारुचिप्रशमनं ज्वरातीसारनाश-
नम् ॥ ३४० ॥ कामलाग्रहणीदोषा-
न्गुल्मं प्लीहानमेव च । प्रमेहं पाण्डु-
रोगश्च श्वयथुश्चापकर्षति ॥ ३४१ ॥

त्रिकुटा, इन्द्रजौ, नीमकी छाल, चिरायता, भागरा, चीता, कुटकी, पाठ, दारुहल्दी, अतीस और वच इन सबको समान भाग लेवे और सबके समान कुंडकी छाल लेवे फिर सबको एकत्र कूट पीसकर चावलोके जलके साथ अथवा गहदके साथ सेवन करे । यह पाचन, मलरोधक, अग्निको दीपन करने वाला, तथा तृषा अरुचि और ज्वरातीसारको शमन करनेवाला है एवं कामला, संग्रहणीरोग, गुल्म, प्लीहा, प्रमेह, पाण्डुरोग और सूजनको नष्ट करता है ॥ ३३८—३४१ ॥

कट्वंगादि वटक ।

कट्वङ्गविल्वजंब्वास्थिकपित्थं सरसा-
अनम् । लाक्षाहरिद्रे द्वीबेरं कट्फलं
शुकनासिकाम् ॥ ३४२ ॥ लोभ्रं मो-

चरसं शंखं धातकीं वटशुङ्गकम् ।
पिष्ट्वा तण्डुलतोयेन वटकानक्षसम्मि-
तान् ॥ ३४३ ॥ छायाशुष्कान्पिबेत्प्रा-
तर्ज्वरातीसारशान्तये । रक्तपित्त-
ज्वरहराञ्छूलातीसारनाशनान् ३४४ ॥

ज्योनाककी छाल, बेलगिरी, जामुनकी गुठली, कैथ, रसौत, लाख, हल्दी, दारुहल्दी, सुगन्धवाला, कायफल, ज्योनाककी छाल, लोथ, मोचरस, शंख, धायके फूल और वडके अबुर इनको चावलोके जल में पीसकर एक २ तोलेके बडे बनाकर छायामें सुखा देवे फिर इनको प्रातःकाल सेवन करे । यह ज्वराती-सारको शांत करते है तथा रक्त पित्त ज्वर, शूल और अतीसारको नष्ट करते है ॥ ३४२—३४४ ॥

पाठामतिविषां निम्बं समङ्गा चन्द-
नं जलम् । धातकीं मुस्तभूनिम्बं ज-
टामांसीं सनागराम् ॥ ३४५ ॥ दावीं
च समभागानि घृतप्रस्थे विपाचयेत् ।
सज्वरेऽस्मिन्नतीसारं ग्रहण्यां पाण्डु-
रोगिणि । मूत्रकृच्छ्रे गुदस्त्रावे
विषूच्यामलसे हितः ॥ ३४६ ॥

पाठ, अतीस, नीमकी छाल, लज्जावंती, चन्दन, सुगन्धवाला, धायके फूल, नागरमोथा, चिरायता, वालछड, सोठ और दारुहल्दी, इन सबको समान भाग लेकर काथ और कल्क बनाकर घृतको सिद्ध करे । यह घृत—ज्वरातीसार, संग्रहणी, पाण्डुरोग, मूत्र-कृच्छ्र गुदस्त्राव और विषूचिका तथा अलसक रोगमें अत्यन्त हितकारक है ॥ ३४५ ॥ ३४६ ॥

इति श्रीवंगसेने भापाटीकायामतीसारा-
धिकारः सम्पूर्णः ॥

अथ ग्रहणी रोग ।

—•••••—

अतिसारे निवृत्तेऽपि मन्दाग्रेरहिता-
शनः । भूयः सन्दूषितो वह्निर्ग्रहणी-
मभिदूषयेत् ॥ १ ॥

अतिसारके निवृत्त होनेपर भी मंदाग्निवाले पुरुष के अहित पदार्थोंके सेवन करनेसे जठराग्नि दूषित होकर ग्रहणीकलाको अभिदूषित कर संग्रहणी रोगको उत्पन्न करती है ॥ १ ॥

तस्मात्कार्यः परीहारस्त्वतीसारं विरक्तवत् । यावन्न प्रकृतिस्थः स्यादोषतः प्राणतस्तथा ॥ २ ॥

इस कारण जबतक दोषमे और आत्मा प्रकृतिमे स्थित न हो तबतक अतीसार रोगी विरेचन (जुलाब) के समान परहेज करे ॥ २ ॥

मांसासृग्मेदसे तिह्वश्चतुर्थी श्लेष्मधारिणी । पञ्चमी च मलं धत्ते षष्ठी चाग्निधरा मत्ता । रेतोधरा सप्तमी स्यादिति सप्त कलाः स्मृताः ॥ ३ ॥

पहली कला—मांसको धारण करती है, दूसरी कला—रधिरको, तीसरी कला—मेदको, चौथी कला कफको, पांचवा कला—मलको, छठी कला—आग्नि-को, और सातवी कला—रेतको धारण करती है, इस प्रकार ये सात कलायें कही है ॥ ३ ॥

षष्ठी पित्तधरा नाम या पूर्वं समुदाहता । पक्वामाशयमध्यस्था ग्रहणी सा प्रकीर्तिना ॥ ४ ॥

इनमे जो छठी पित्तधरा नामक कला कही है वह पक्वागय और आमाशयके मध्यमे स्थित है उसी को ग्रहणी कहते है ॥ ४ ॥

अग्न्यधिष्ठानमन्नस्य ग्रहणाद् ग्रहणी मत्ता । नाभेरुपरि सा ह्यग्निर्वलोपस्तम्भवृंहिता ॥ ५ ॥

अन्नका अधिष्ठान अग्नि है और उसको ग्रहण करनेसे ग्रहणी कहते है । वह अग्नि नाभिके ऊपर स्थित है तथा बलसे स्तम्भित और पुष्ट रहती है ॥ ५ ॥

अपक्वं धारत्यन्नं पक्वं सृजति चाप्यधः ॥ ६ ॥

अपक अन्नको धारण करती है और पके हुए अन्न को नीचे गिरा देती है ॥ ६ ॥

ग्रहण्यामलमग्निर्हि स चापि ग्रहणीं श्रितः । तस्मात्सन्दूषिते वह्नीं ग्रहणीं दूष्यते नृणाम् ॥ ७ ॥

ग्रहणीका बल अग्नि ही है और ग्रहणीके आश्रित है, इसलिये अग्निके दूषित होनेसे मनुष्योंके ग्रहणी भी दूषित हो जाती है ॥ ७ ॥

एकैकशः सर्वशश्च दोषैरत्यर्थमूर्च्छितैः । सा दुष्टा बहुशो भुक्त्याममेव विमुञ्चति ॥ ८ ॥ पक्वं वा सरुजं पूति सुहूर्बद्धं सुहूर्द्रवम् । ग्रहणीरोगमाहुस्तमायुर्वेदविदो जनाः ॥ ९ ॥

अत्यन्त दुष्ट हुए अलग २ वात, पित्त, कफ, और मिले हुए दोषोंसे वह ग्रहणी दुष्ट होकर अपक अथवा पक मलको गुदाके द्वारा गिराती है उस समय प्रायः पीडा हो, मल दुर्गन्धयुक्त हो, कभी पतला और कभी गाढा मल उतरता हो तो इसका बधलोग संग्रहणी कहते है ॥ ८ ॥ ९ ॥

संग्रहणीका अपूर्वरूप ।

पूर्वरूपन्तु तस्येदं नृणालस्यं बलक्षयः । विदाहोऽन्नस्य पाकश्च चिरात्कायस्य गौरवम् ॥ १० ॥

तृपा, आलस्य, बलका नाश, अन्नका दाहपूर्वक बहुकालमें पचना और शरीरमें भारीपन, यह संग्रहणीके पूर्व लक्षण जानने ॥ १० ॥

संग्रहणीका निदान और रूप ।

कटुतिक्तकषायातिरूक्षशीताम्लभोजनैः । प्रमितानशनात्यध्ववेगनिग्रहमैथुनेः ॥ ११ ॥ मारुतः कुपितो वह्निं संछाद्य कुरुते गदान् ॥ १२ ॥

चरपरे, कडवे, कषैले, अत्यन्त रुखे, शीतल और खट्टे पदार्थोंके सेवन करनेसे, या अल्प भोजन करनेसे, अथवा उपवास करनेसे, अधिकतर मार्गके चलनेसे, मल मूत्रादिकोंके वेगको रोकनेसे

और अत्यंत स्त्रीप्रसंग करनेसे, वायु कुपित होकर अग्निको आच्छादित कर रोगोंको उत्पन्न करता है ॥ ११ ॥ १२ ॥

संग्रहणीके लक्षण ।

तस्यान्नं पच्यते दुःखं शुक्तपाकं खरां गता । कंठास्यशोषः क्षुत्तूष्णा तिमिरं कर्णयोः स्वनः ॥ १३ ॥ पार्श्वोरुवंक्षणग्रीवारुगभीक्षणं विषूचिका । हृत्पीडा काश्यदौर्बल्यं वैरस्यं परिकर्तिका ॥ १४ ॥ गृद्धिः सर्वरसानाश्च मनसः सदनं तथा । जीर्णं जीर्यति चाध्मानं भुङ्क्ते स्वास्थ्यमुपैति च ॥ १५ ॥ सवातगुल्महृद्रोगप्लीहाशकी च मानवः ॥ चिराद्दुःखं द्रवं शुष्कं तन्वामं शब्दफेनवत । पुनः पुनः सृजेद्दुर्चः कासश्वासादितोऽनिलात् ॥ १६ ॥

उस रोगीके अन्न अत्यन्त कष्टसे पचता है और उसका पाक खट्टा होता है, शरीरमें रूक्षता होती है, कण्ठ और मुख सूखता है, क्षुधा और तृप्ता अधिक लगे, आँखोंके सम्मुख अंधकार दीखे, कानोंमें शब्द हो, पसली, जानु, वंक्षण और ग्रीवा इनमें अधिक पीडा हो, विषूचिका (अर्थात् कै और दस्त हो), कच्चा अन्न निकले अथवा बारवार सुईके समान पीडा हो, हृदयमें वेदना हो, शरीर कृश और दुर्बल हो, मुखमें विरसता, गुदामें कतरनीके समान पीडा तथा सर्व रसवाले पदार्थोंको भक्षण करनेकी सदैव इच्छा हो, मनमें ग्लानि हो, भोजनके पचते समय अथवा पच जानेपर अफारा हो और भोजन करते समय सुख हो, वायुका गोला हो, हृदयरोग, प्लीहा इन रोगोंकी शंका, बहुत देरमें अत्यन्त कष्टसे कभी पतला, कभी सूखा और बहुत थोडा, आम जव्व और झाग मिला बारवार मल उतरता है तथा वातसे श्वास और खाँसी भी होती है (यह वातसे उत्पन्न हुई ग्रहणीके लक्षण जानना चाहिये) ॥ १३ ॥ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥

ग्रहणीमाश्रितं दोषमजीर्णवदुपाचरेत् । लङ्घनैर्दीपनीयैश्च सामातिसारभेषजैः ॥ १७ ॥ दोषं सामं निरा-

मश्च विद्यादन्नातिसारवत । अतीसारोक्तविधिना तस्यामश्च विपाचयेत् ॥ १८ ॥

संग्रहणीरोगमें अजीर्णके समान चिकित्सा करे, तथा आमातिसारोक्त लंघन करावे और दीपन औषधि देवे । जिस प्रकार अतिसारमें दोषोकी समता अथवा निरामता प्रथम ही जान ली जाती है उसी प्रकार इनमें भी दोषोकी साम और निराम अवस्था प्रथम विचार लेनी चाहिये जो दोष आम सहित हो तो अतिसारोक्त विधिके अनुसार आमको पचावे ॥ १७ ॥ १८ ॥

विशुद्धामाशयायास्मै पञ्चकोलकसंस्कृतम् । दद्यात्पेयादिलघ्वन्नं योजयेत् प्रदीपनम् ॥ १९ ॥

शुद्ध आमाशयवाले मनुष्यको पंचकोलसे संस्कार किये हुए पेयादि हलके अन्न देवे, पश्चात् अग्निको दीपन करनेवाले पदार्थ प्रयोग करे ॥ १९ ॥

पञ्चकोलकयूपस्तु मूलकानां रसोऽथवा । सुस्निग्धो दाडिमाम्लश्च वातनुद्गोजने हितः ॥ २० ॥

पंचकोलका यूप, या मूलीका स्वरस अथवा अनारका रस और स्निग्ध पदार्थ इन सबको भोजनके साथ प्रयोग करे । ये सब वातकी संग्रहणीमें हितकारी है ॥ २० ॥

पेयादि पटु लघ्वन्नं पञ्चकोलादिभिर्युतम् । दीपनानि च तक्रं च ग्रहण्यां तु प्रयोजयेत् ॥ २१ ॥

लवणयुक्त पेयादि हलके अन्न और पंचकोल आदि सहित यूप, अग्निको दीपन करनेवाले पदार्थ और तक्र ये सब संग्रहणी रोगमें प्रयोग करने चाहिये २१

कपित्थबिल्वचाङ्गेरीतक्रदाडिमसाधिता । यवागूः पाचयत्यामं शकृत्संवर्तयत्यपि ॥ २२ ॥

कैथ, बेलगिरी, चांगेरी, अम्ल (चूका), तक्र और अनार इनके द्वारा सिद्ध की हुई यवागू आमको पचाती है और मलको बाँवती है ॥ २२ ॥

ग्रहणीदोषिणां तक्रं दीपनं ग्राहि लाघवम् । पथ्यं मधुरपाकत्रान्न च पित्तं

प्रधापयेत् ॥ २३ ॥ कषायोष्णविका-
शित्वाद्रौक्ष्याच्चैव कफे हितम् । वाते
स्वाद्वल्मसान्द्रत्वात्सद्यस्कमविदाहि-
तम् ॥ २४ ॥

संग्रहणीरोगियोंको तक्र—दीपन पाचन और
हल्का है, पथ्य है, यह मधुरपाकी होनेसे पित्तको
कुपित नहीं करता है कपैला, उष्ण, विकारि और
रूक्ष होनेसे कफमें हितकारी है । स्वादिष्ट, अम्ल
और सान्द्र होनेसे वातमें हितकारक है तथा तत्काल
गुणकारक है और दाहकारक नहीं है ॥२३॥२४॥

शुण्ठीसमुत्तातिविषां गुडूचीं पिबे-
त्समांशां कथितां जलेन । मन्दान-
लत्वे सततामतायामामानुबन्धे ग्र-
हणीगदे च ॥ २५ ॥

सोठ, नागरमोथा, अतीस और गिलेय इन सबको
समान भाग लेकर काथ बनाकर पान करे । यह काथ
मन्दाग्नि, आमातीसार और आमयुक्त ग्रहणीरोगको
नष्ट करता है ॥ २५ ॥

पिप्पल्यादिचूर्ण ।

पिप्पलीवृहतीव्याघ्रीयवक्षारकलिं-
गकाः । चित्रकं शारिवापाठाशटी-
लवणपञ्चकम् ॥ २६ ॥ तच्चूर्णं पायये-
द्दध्ना सुरयोष्णांभसापि वा । मारुत-
ग्रहणीदोषे शमनं परमं मतम् ॥ २७ ॥

पीपल, वडी कटेरी, कटेरी, जवाखार, इन्द्रजौ,
चीता, सारिवा, पाठा, कचूर और पांचो नमक इन
सबको एकत्र पीसकर चूर्ण करेले फिर इस चूर्णको
गौके दहीके साथ अथवा उष्णजलके साथ सेवन करे तो
वातज सग्रहणा, रोग शमन होता है ॥ २६ ॥ २७ ॥

धान्यकातिविषोदौघ्ययवानीमुस्तना-
गरम् । बला द्विपर्णी विल्वं च दद्या-
द्दीपनपाचनम् ॥ २८ ॥

धानियाँ, अतीस, सुगन्धवाला, अजवायन, नागर-
मोथा, मोठ, खिरौटी, जालपर्णी, घृत्निपर्णी और
बलगिरी इनका काथ दीपन और पाचन है ॥२८॥

कालिंगहिंश्रुतिविषा वचासौवर्चला-
भयाः । दार्दीग्रन्थिकमृलेन पातव्य-
श्रोष्ण वारिणा ॥ २९ ॥

इन्द्रजौ, हींग, अतीस, वच, कालानमक, हरड,
दारु हल्दी और पीपलामूल इनके चूर्णको गरम जल-
के साथ पीना चाहिये ॥ २९ ॥

नागरं कौटजं बीजं पिप्पली वृहती-
द्वयम् । चित्रकं शारिवा पाठा क्षारं
लवणपञ्चकम् ॥ ३० ॥ चूर्णयित्वा
सुरामण्डं दधिकोष्णांबुकाञ्जिकैः ।
पिबेदग्निविवृद्धयर्थं कोष्ठवातहरं
परम् ॥ ३१ ॥

सोठ, कुडके बीज, पीपल, वडी कटेरी, कटेरी,
चीता, सारिवा, पाठा, जवाखार और पांचो नमक
इनका चूर्ण करके सुरा मंडके साथ अथवा दहीके
साथ क्वागरम जल या कांजीके साथ अग्निको
बढानेके लिए पान करे । यह कोठेकी वायुको हरने-
वाला है ॥ ३० ॥ ३१ ॥

हिंश्रुकचूर्ण ।

यवानीव्योषसिन्धूत्थजीरकद्वयहिंश्रु-
जम् । आद्यग्रासाशितं साज्यं चूर्णं
वातनुदग्निकृत ॥ ३२ ॥

अजवायन, त्रिकुटा, सैधानोन, जीरा, कालाजीरा
और हींग इनका चूर्ण करके घी मिलाकर भोजनके
पहले ग्रासमें मिलाकर भक्षण करे । यह चूर्ण वात-
नाशक और अग्निको दीपन करता है ॥ ३२ ॥

कृष्णाविडविजयानां गुटिका सर्पि-
ष्मती पाने । ग्रहणीदोषेष्वरुचिमन्दा-
ग्निशकृद्विबन्धे च ॥ ३३ ॥

पीपल, विरियासंकरनेन और भोंग इनको
एकत्र पीसकर घीके योगसे गोली बना लेवे । यह
गोली—सग्रहणीरोग, अरुचि, मन्दाग्नि और मलकी
विवन्धताको नष्ट करती है ॥ ३३ ॥

चित्तकादिगुटिका ।

चित्तकं पिप्पलीमूलं द्रौ क्षारौ लव-
णानि च । व्योषं हिंश्रुजमोदाश्च

चव्यं चैकत्र चूर्णयेत् ॥ ३४ ॥ गुट्टिका मातुलुङ्गस्य दाडिमस्य रसेन वा । कृता विपाचयत्यामं दीपयत्याशु चानलम् ॥ ३५ ॥

चीता, पीपलामूल, जवाखार, सजी, पांचो नमक, त्रिकुटा, हींग, अजमोद और चव्य इनको एकत्र पीसकर विजौर नीचूके स्वरस अथवा अनारके स्वरसमें खरलकर गोली बना लेवो यह गोली—आमको पचाती है और अग्निको दीपन करती है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

सौवर्चलं सैन्धवश्च विडमौद्दिदमेव च । सामुद्रेण समं पञ्च लवणान्यत्र योजयेत् ॥ ३६ ॥

कालानमक, सैधानमक, साम्भरनमक, खारीनमक और समुद्रनोन यह पांचो समान भाग लेवे इनके समुदायको पंचलवण कहते हैं ॥ ३६ ॥

ज्ञात्वा तु परिपक्वं च वातजं ग्रहणीगदम् । दीपनैर्भेषजैः पक्कैः सर्पिर्भिः समुपाचरेत् ॥ ३७ ॥

वातजसंग्रहणीको परिपक्व जानकर दीपन औपधियोके द्वारा सिद्ध किये हुए घृतसे चिकित्सा करे ३७ ॥

धान्यबिल्वबलाशुण्ठीतालपर्णीशतं जलम् । स्याद्वातग्रहणीदोषे सानाह सपरिग्रह ॥ ३८ ॥

धानियाँ, बेलगिरी, खिरौटी, सोंठ और सौफ इनका काथ बनाकर पीवे तो वातजग्रहणी, आनाह और शूल नष्ट होता है ॥ ३८ ॥

द्विपञ्चमूलादिघृत ।

द्विपञ्चमूले सरलं देवदारु सनागरम् । पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रकं हस्तिपिप्पलीम् ॥ ३९ ॥ शणबीजं यवान्कोलान्कुलित्यानाकुलीकृतान् । पाचयेदारनालेन दध्ना सौवीरकेण च ॥ ४० ॥ चतुर्भागावशेषेण पचेत्तेन घृताढकम् । स्वर्जिकायावशूकानां क्षारौ दत्त्वा च युक्तितः ॥ ४१ ॥

१ साम्भर नमक लेना जो मारवाडसे आता है ।

सैन्धवोद्दिदसामुद्रविडानां रोमकस्य च । ससौवर्चलपाकानां भागान्द्रिपलिकान्पृथक् ॥ ४२ ॥ विनीय चूर्णितांस्तस्मात्पाययेत्प्रसृतं बुधः । करोत्यश्विबलं वर्णं वातघ्नं भुक्तपाचनम् ॥ ४३ ॥

दशमूल, धूपसरल, देवदारु, सोंठ, पीपल, पीपलामूल, चीता, गजपीपल, सनके बीज, जौ, बेर और कुलथी इनके काथ तथा काँजी, दही और सौवीर नामक काँजी इनके द्वारा एक आढक घृतको 'पकावे' फिर सजी, जवाखार, सैधानोन, खारी नमक, समुद्रनमक, विडनमक, सामरनमक और कालानमक इनका चूर्ण दो दो पल डाले, सबको मिलाकर विधि पूर्वक घृतको सिद्ध करे । यह घृत—अग्नि, बल और वर्णको बढ़ानेवाला है, अन्नको पचानेवाला तथा वातको नष्ट करनेवाला है ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

अत्र शुष्कमानेन द्विपञ्चमूलादीनां षट्पञ्चाशत्पलाधिकः पलशतद्वयमारनालादीनामन्यतमस्य च । चतुर्भिर्द्रोणैर्निष्काथ्य द्रोणावशेष इष्यते । स्वर्जीकाक्षारयवक्षारयोरपि द्विपलिकत्वम् ॥

यहाँ दशमूलकी सूखी औपधि ५६ पल लेनी चाहिये । काँजीआदि पदार्थ २०० पल लेने चाहिए । पंचमूलादि औपधियोको चार द्रोण जलमें पकावे, जब चौथाई भाग जल शेष रह जाय तब उतार कर छान लेवे सजी और जवाखार भी दो दो पल लेने चाहिये ।

पञ्चमूल्यादिघृत ।

पञ्चमूल्यभयाव्योषपिप्पलीमूलसैन्धवैः । रास्नाक्षारद्वयाऽजाजीविडङ्गशठिभिर्घृतम् ॥ ४४ ॥ शुक्तेन मातुलुङ्गस्य स्वरसेनार्द्रकस्य च । शुष्कमूलककोलाम्बु चुक्रिका दाडिमस्य च ॥ ४५ ॥ तक्रमस्तुसुरामण्डसौवीरकतुषोदकैः । काञ्जिकेन च

तत्राहं पतिमाश्रिकरं परम् ॥ ४६ ॥

शूलगुल्मोदरानाहकासानिलगदाप-
हम् ॥ ४७ ॥

पंचमूल, हरड, त्रिकुटा, पीपलामूल, सैधानोंन, रायसन, जवाखार, सजी, जीरा, कालाजीरा, वाय-विडंग और कचूर इन सबका कल्क तथा शुक्त(सिर-का), विजौरेनीवूका स्वरस, अदरखका स्वरस, सूखी मूलीका काथ, वैरका काथ, चूकेका स्वरस, अनारका रस, छाँछ, दहीका तोड, सुरामंड, सौवीर नामक कांजी, जौका पानी और कांजी इन सबके द्वारा यथाविधि घृतको पकावे इस घृतको पान करनेसे अग्नि दीपन होती है तथा गुल्म, शूल, उदररोग आनाह खांसी और वातरोग नष्ट होते हैं ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

महदग्निघृत ।

चव्यचित्रकपाठानां तेजोवत्यास्तथै-
व च । कणापिप्पलिमूलानां भागा-
न्दद्याच्चतुष्पलान् ॥ ४८ ॥ पलानि
चाष्टौ मुस्तायाः सुनिशामुष्टयस्त्व
ह । आल्फोतायाः प्रवालानां माल-
तीकरवीरयोः ॥ सतपर्णकरञ्जार्कता-
पशाऽक्षोटकस्य च ॥ ४९ ॥ एतान्सं-
कुड्य विपचेज्जलद्रोणचतुष्टये । चतु-
र्भागावशेषन्तु कुय्यान्मन्देन वह्निना
॥ ५० ॥ कटुकातिविषे स्यातां प्रत्येकं
त्रिपलोन्मिते । पिप्पलीनाञ्च कुडवं
विडंगानां घनस्य च ॥ ५१ ॥ तथा
वत्सकबीजानां कल्कार्थं सम्प्रदापये-
त् ॥ ५२ ॥ क्षारस्य यावशूकस्य स्व-
ज्जिकायास्तथैव च । विडसेन्धवयो-
श्चैव दद्याद्द्वे पले शृते ॥ ५३ ॥ तत-
स्तेन कषायेण कल्केरेभिश्च पेषितैः ।
दधिमस्त्वम्लशुक्तेश्च पचेद्द्वयो घृताढ-
कम् ॥ ५४ ॥ साम्नु कल्कं पिबेत्कर्षं विं-
ष्टम्भे द्विगुणं पिबेत् । उष्णोदकानु-
पानञ्च कुय्यांजीर्णेऽथ भोजनम् ॥ ५५ ॥

अनेन ग्रहणीदोषाः सर्वे नश्यन्ति दे-
हिनाम् । कफवाताश्रयाश्चैव गुल्माश्चै-
व चतुर्विधाः ॥ ५६ ॥ अर्शासि नाश-
यत्येव ग्रीहानं शमयत्यपि । महद-
ग्निघृतं त्वेतद्भिषजा परिचक्ष्यते ॥ ५७ ॥

चव्य, चीता, पाठ, तेजवल, पीपल और पीपल-मूल, ये प्रत्येक चार २ पल, नागरमोथा आठपल, हल्दी, मुलैठी, कोयलके पत्ते, मालतीके क्रोमेल पत्ते, कनेरके पत्ते, सतौना, करज, आक, हिगोट और अखरोट इन सबको एकत्र कूटकर चार द्रोण जलमें पकावे जब चौथाई भाग शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे फिर उसको मन्द २ अग्निसे पकावे और उसमें कुटकी, अतीस, ये प्रत्येक तीन २ पल, पीपल, वायविडंग, नागरमोथा और इन्द्रजौ ये प्रत्येक चार २ पल, जवाखार, सजी, विरियासंचरनोंन और सैधानोंन ये प्रत्येक दो दो पल, उन सबको उक्त काथमें पीसकर मिला देवे फिर दही, दहीका तोड और कांजी मिलाकर एक आढक प्रमाण घृतको पकावे । इसको नित्य एक कर्पप्रमाण पान करे । अनु-पान-गरम जल । जब यह जीर्ण हो जाय तब भोजन करे । इसको सेवन करनेसे सर्वप्रकारके संग्रहणी रोग, कफशतोद्भवसंग्रहणी रोग, चारोप्रकारके गुल्म, सर्व प्रकारकी ववासीर, ग्रीहारोग यह सब शीघ्र ही दूर हो जाते हैं यह महदग्निघृत—बैद्योकरके कहा हुआ है ॥ ४८—५७ ॥

“स्निग्धं भुञ्जीत चाप्यन्नं मांसं खादे-
च्च भेदुरम् । अत्यग्निनाशनार्थाय
भक्षयेन्मधुना सह”

“इसपर स्निग्ध अन्न भोजन करे तथा स्त्रीजातिके पशुओका मांस खाय जो भस्माग्निको दूर करनेके लिये सेवन करना हो तो शहदके साथ भक्षण करे”

शुण्ठीघृत ।

घृतं नागरकल्केन सिद्धं वातानुलो-
मनम् । ग्रहणीपाण्डुरोगं ग्रीहका-
सज्वरापहम् ॥ ५८ ॥

सोठके कल्कके द्वारा घृतको पकाकर सेवन करे तो वह वातको अनुलोमन करता है तथा संग्रहणी, पाण्डुरोग, ग्रीहा और ज्वरको दूर करता है ॥ ५८ ॥

विश्वौषधस्य गर्भेण दशमूलजले
शृतम् । घृतं निहन्याच्छूयथुं ग्रहणी-
मामवातजाम् ॥ ५९ ॥

सोठके कल्क और दशमूलके काथके द्वारा घृतको
पकाकर सेवन करनेसे सूजन और आमवातज
संग्रहणी रोग नष्ट होता है ॥ ५९ ॥

बृहन्नांगेरीघृत ।

नागरं पिप्पलीमूलं चित्रकं हस्ति-
पिप्पली । श्वदंष्ट्रा पिप्पली धान्यं
विल्वं पाठा यवानिका ॥ ६० ॥ चा-
ङ्गेरी स्वरसे सर्पिः कल्कैरेतौ विपा-
चयेत् । चतुर्गुणेन दध्ना च तद्घृतं क-
फवातनुत् ॥ ६१ ॥ अर्शांसि ग्रहणी-
दोषं मूत्रकृच्छ्रं प्रवाहिकाम् । गु-
दभ्रंशार्तिमानाहमेतत्सर्पिव्यपोह-
ति ॥ ६२ ॥

सोठ, पिप्पलीमूल, चीता, गजपीपल, गोखरु, पी-
पल, धनियॉ, बेलगिरी, पाठ और अजवायन इन सबका
चूर्ण चार चार तोले लेवे, और घृत ६४ पल एवं
चांगेरी (अम्ल नोनिया) का रस २५६ पल लेवे
और २५६ पल दही लेवे फिर सबको मिलाकर यथा
विधिसे घृतको सिद्ध करे । यह घृत-सब प्रकारके
कफ, वातरोग, सबप्रकारकी ववासीर, सबप्रकारकी
संग्रहणी, मूत्रकृच्छ्र, प्रवाहिका, गुदभ्रंश और आनाह
इन सब रोगोंको नष्ट करता है ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥

वस्तिकर्म भिषक् कुर्यान्मन्दाग्नेः
सक्तवर्चसः ॥

जो वातसंग्रहणीमें अग्नि मंद हो और मलका
अवरोध हो तो वैद्यको उचित है कि, वस्तिकर्म
प्रयोग करे ॥

कटुजीर्णविदाह्यम्लक्षाराद्यैः पित्त-
मुल्बणम् । संष्ठावयेद्धन्त्यनिलं जलं
तप्तमिवानलम् ॥ ६३ ॥ सोऽजीर्ण
नीलपीताभं पीताभः सायर्थते द्रव-
म् । पूत्यम्लोद्गारहृत्कण्ठदाहारुचितृ-
द्विदितः ॥ ६४ ॥ वद्वेः प्रदूषणं पित्तं

विरैकैर्वमनेन वा । हत्वा भोज्यैर्लघु-
ग्राही दीपनैरविदाहिभिः ॥ ६५ ॥ द्वि-
भिः संवृहयेद्रहिं चूर्णस्निग्धैश्च ति-
क्तकैः ॥ ६६ ॥

चरपरे, कच्चे, दाहकारक, खट्टे, खारी, नमकीन
और गरम पदार्थोंको भक्षण करनेसे पित्त अत्यन्त
कुपित होकर जठराग्निको इस प्रकार मंद करदेता है
जिस प्रकार गरम जल अग्निको बुझादेता है । उससे
कच्चा, नीला, पीला और पतला ऐसा मल उतरता हो।
तथा दुर्गन्धयुक्त, खट्टी डकार आती हो और कंठमें
दाह, अरुचि और तृपाकी पीडा हो ये सब लक्षण हो
तो पित्तकी संग्रहणी जाननी चाहिये उस जठराग्निको
दूषित करनेवाले पित्तको विरेचन और वमनके द्वारा
ज्ञान करे । पश्चात् हलके भोजन, मलरोधक दीपन
और अविदाही पदार्थोंको सेवन करे । और कडवे
तथा स्निग्ध चूर्णोंसे अग्निको दीपन करे ॥ ६३ ॥
॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥

रसाञ्जनादिचूर्ण ।

रसाञ्जनमतिविषा वत्सकस्य फल-
त्वचम् । नागरं धातकी चैव सक्षौद्रं
तंडुलाम्बुना ॥ पित्तग्रहणीदोषार्शो-
रक्तपित्तातिसारनुत् ॥ ६७ ॥

रसौत, अतौस, इन्द्रजौ, कुडेकी छाल, सोठ और
धायके फूल इन सबको एकत्र पीसकर गहद और
चावलोके जलके साथ सेवनकरनेसे पित्तकी संग्रहणी,
ववासीर, रक्तपित्त और अतिसार नष्ट होता है ॥ ६७ ॥

पाठादिकाथचूर्ण ।

पाठावत्सकबीजानि चित्रकं विश्वभे-
षजम् । पिबेन्निष्काथ्य चूर्णानि कृत्वा
चोष्णेन वारिणा ॥ ६८ ॥ पित्तश्लेष्मा-
भिभूतानां ग्रहण्यां शूलनुद्धितम् ॥ ६९ ॥

पाठ, इन्द्रजौ, चीता और सोठ इनका काथ अथवा
इनका चूर्ण बनाकर गरम जलके साथ पान करनेसे
पित्तकफसे उत्पन्न हुई संग्रहणी और सब प्रकारका
शूल नष्ट होता है ॥ ६८ ॥ ६९ ॥

नागरादिचूर्ण ।

नागरातिविषा मुस्तं धातकी सर-
साञ्जनम् । दत्सकत्वकफलं विल्वं
पाठा तिक्तकरोहिणी ॥ ७० ॥ पिबे-
त्समांशं तच्चूर्णं सक्षौद्रं तण्डुलांबुना ।
पैत्तिके ग्रहणीदोषे रक्तं यच्चोपवेश्यते
॥ ७१ ॥ अर्शास्यथ गुदे शूलं जयेच्चैव
प्रवाहिकाम् । नागराद्यभिदं चूर्णं
कृष्णात्रेयेण पूजितम् ॥ ७२ ॥

सोठ, अर्तास, नागरमोथा, धायके फूल, रसांत,
कुढेको छाल, इन्द्रजौ, बेलगिरी, पाठ और कुटकी
इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण करके जहद और
चावलोके जलके साथ पान करे तो पित्तकी संग्रह-
णी, रुधिरकी वचासीर, गुडशूल और प्रवाहिका रोग
नष्ट होता है। यह नागरादिचूर्ण कृष्णात्रेयकरके पूजित
किया हुआ है। ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥

तंडुलोदकविधि ।

जलमष्टगुणं दद्यात्पलं कण्डिततण्डु-
लान् । भावयित्वा ततो देयं तण्डु-
लोदककर्मणि ॥ ७३ ॥

चारतौले कुटे हुए चावलोको आठपलजलमे भिजो
देवं, फिर उनको एकप्रहरके पश्चात् छान लेवे तो
तण्डुलोदक बन जाता है इसको तण्डुलोदक कर्ममे
छाना चाहिए ॥ ७३ ॥

भूनिम्बादि चूर्ण ।

भूनिम्बकटुकाव्योषमुस्तकेन्द्रयवान्स-
मान् । द्वौ चित्रकाद्रत्सकत्वगभागा-
न्षोडश चूर्णयेत् ॥ ७४ ॥ गुडशीतांबुना
पीतं ग्रहणीदोषगुल्मनुत् । कमलाज्व-
रपाण्डुत्वमेहारुच्यतिपाण्डुनुत् ॥ ७५ ॥

गुडयोगाहुडंबुस्थाहुडवर्णरसान्वितम् ।
चिरायता, कुटकी, त्रिकुटा, नागरमोथा और इन्द्र-
जौ ये सब एक २ भाग, चीतेकी जडकी छाल २
भाग और कुढेको छाल १६ भाग, सबको एकत्र चूर्ण
कर गुड और शीतल जलके साथ पीवे तो संग्रहणी

रोग, गुल्म कामला, ज्वर, पाण्डुगोग, प्रसह अर्शच
और पाण्डुता नष्ट होती है । यदा गुण और शीतल
जलका जो योग (अनुपान) कहा वहाँ गुटका
शश्वन लेना चाहिए ॥ ७४ ॥ ७५ ॥

पाठादिचूर्ण ।

पाठाविल्वानलव्योपजम्बुदाडिमधा-
तकी । कटुकातिविषामुस्तादार्वीभृनि
म्बवत्सकैः ॥ ७६ ॥ सर्वेभूतैः समं चूर्णं
कौटजंतण्डुलांबुना । सक्षौद्रं पिबेच्छ-
र्दिज्वरानोसारशूलनुत् ॥ ७७ ॥ रुग्दाह-
ग्रहणीदोषारोचकानलसादनुत् ।

पाठ, बेलगिरी, चीता, त्रिकुटा, जामुन, अनार,
धायके फूल, कुटकी, अतीम, नागरमोथा, दारु-
हल्ली, चिरायता और इन्द्रजौ ये सब समान भाग
लेवे सबको एकत्र चूर्ण करके चावलोके जलके साथ
और शहदके साथ सेवन करे । यह चूर्ण वमन, ज्वर,
अतीसार, शूल, दाह, संग्रहणी रोग, अर्शच और
अमिकी मदताको नष्ट करता है। ७६ ॥ ७७ ॥

चन्दनादिघृत ।

चन्दनं पद्मकोशीरं पाठा मूर्वा कुटं-
नटम् । षड्ग्रन्थां शारिवास्फीता-
सप्तपर्णाटरूषकम् ॥ ७८ ॥ पटोलोदु-
म्बराश्वत्थवटप्लक्षकपित्थकान् । कटु-
कां रोहिणीं मुस्तं निम्बश्च द्विपलां-
शकम् ॥ ७९ ॥ द्रोणेऽपां साधयेत्पा-
दशेषे प्रस्थं घृतं पचेत् । किरातति-
क्तन्द्रयववीरामागधिकोत्पलैः ॥ ८० ॥
कल्कैरक्षसमैः पेयं तत्पित्तग्रहणीगदे ।

चन्दन, पद्माख, खस, पाठ, मूर्वा, ज्योनाककी
छाल, वच, सारिवा, कोयली, सतवन, अडूसा,
पटोलपत्र, गूलर, पीपलकी छाल, बड़ेके अंकुर, पिल-
खन, कुटकी, कैथ, हरड नागरमोथा और नीमकी
छाल, ये प्रत्येक औषधि दो दो पल लेकर
एक द्रोण जलसे पकावे जब चौथाई भाग

जल शेष रह जाय तब उतारकर छान लेवे । फिर उस काथको चूल्हेपर चढावे और उसमे सोलह पल घृत डाले तथा चिरायता, इन्द्रजौ, मुईआमला, पीपल और कमल इनका कल्क एक २ कर्ष प्रमाण डालकर पकावे । इस घृतको पान करनेसे पित्तकी संग्रहणी नष्ट होती है ॥७८॥७९॥८०॥

किरातादिवृत ।

किरातातित्तं षड्ग्रन्था त्रायमाणा कटुत्रिकम् । चन्दनं पद्मकोशीरं दावी- त्वकटुरोहिणी ॥ ८१ ॥ कुटजत्वक्फलं सुस्तं यवानी देवदारु च । पटोलनि- म्बपत्रलासौराष्ट्रयातिविषावचा ॥ ८२ ॥ मधुशिथोश्च बीजानि मूर्वा पर्पटकं तथा । तच्चूर्णं मधुना लेह्यं पेयं सर्वै- र्घृतेन वा ॥ ८३ ॥ हृत्पाण्डुग्रहणी- दोषशूलगुल्मारुचिज्वरान् । कामलां सन्निपातश्च मुखरोगश्च नाशयेत् ॥ ८४ ॥

चिरायता, वच, त्रायमाण, त्रिकुटा, चन्दन, प- द्माख, खस, दारुहल्दी, कुटकी, कुडकी छाल, इन्द्र- जौ, नागरमोथा, अजवायन, देवदारु, पटोलपात, नीमके पत्ते, इलायची, वटकरी, अतीस, वच, मुलै- ठी, सैजिनेके बीज, मूर्वा और पित्तपापडा इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण कर शहदमे मिलाकर सेवन करे अथवा इन सब औषधियोंके द्वारा घृतको पकाकर पान करे । यह घृत—हृदयरोग, पाण्डुरोग, संग्रहणीरोग, शूल, गुल्म, अरुचि, ज्वर, कामला, सन्निपात और मुखरोगका नाश करता है ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥

मसूरस्य कषायेण विल्वगर्भं पचेद्घृ- तम् । हन्ति कुक्ष्यामयान्सर्वान्ग्रहणी- पाण्डुकामलान् ॥ ८५ ॥

मसूरके काथ और वेलगिरीके कल्कके द्वारा घृत को सिद्ध करे । यह मसूरघृत—कोखमें उत्पन्न हुए सब प्रकारके संग्रहणी, पाण्डु और कामलादि रोगोंको नष्ट करता है ॥ ८५ ॥

मसुरादिवृत ।

मसूराणां पलशतं जलद्रोणे विपा- चयेत् । पादशेषे रसे तस्मिन्दद्याद्दि-

ल्वं पलाष्टकम् ॥ ८६ ॥ घृतप्रस्थं पचे- ष्ठीषाञ्छास्त्राविन्मृदुनाग्निना । प्रवा- हिकामतीसारं ग्रहणीदोषमेव च ॥ ८७ ॥ हन्यात्क्षिप्रसन्देहं कृष्णात्रे- यस्य शासनात् । भिन्नविट्के प्रशं- सन्ति मसूरघृतमुत्तमम् ॥ ८८ ॥

सौ १०० पल मसूरको लेकर एकद्रोण जलमे पकावे, जब पकते २ चौथाई भाग जल शेष रह जाय तब उसमे वेलगिरी आठपल और गौका उत्तम थी १६ पल डालकर घृतको मंद २ अग्निसे पकावे । यह घृत—प्रवाहिका, अतीसार और संग्रहणीरोगको नष्ट करता है यह कृष्णात्रेय करके पूजित मसूरघृत अतीसाररोगमे अत्यन्त हितकारी है ८६ ॥ ८७ ॥ ८८

ब्रीहिप्राण्यङ्गयोः काथमुषितं परिव- र्जयेत् । नवं धान्यमभिष्यन्दि लघु- संवत्सरोषितम् । विदाहि गुरु वि- ष्टम्भि विरूढं वातकोपनम् ॥ ८९ ॥

ब्रीहि धानोका और प्राणियोंके मांसका वासी काथ नहीं लेना चाहिए । नये धान्य अभिष्यन्दी होते है और एक वर्षके पुराने धान्य हलके होते है । जिनमे अंकुर निकल आये हो ऐसे धान्य दाहकारक, भारी, विष्टम्भकारी और वातको कुपित करनेवाले होते है ॥ ८९ ॥

कलिङ्गघृत ।

कलिङ्गफलकल्केन घृतप्रस्थं प्रसाधि- तम् । कफपित्तसमुद्भूतां ग्रहणीं हन्त्य- संशयम् ॥ ९० ॥

इन्द्रजौके कल्कके द्वारा एक प्रस्थ घृतको पकावे । उस घृतको पान करनेसे कफपित्तसे उत्पन्न हुई संग्र- हणी अवश्य नष्ट हो जाती है ॥ ९० ॥

कफग्रहणीरोगकी चिकित्सा ।

गुर्वतिस्त्रिगुधशीतादिभोजनादातिभो- जनात् । भुक्तमात्रस्य च स्वमाह्वं- त्यग्निं कुपितः कफः ॥ ९१ ॥ तस्या- न्नं पच्यते दुःखं हल्लासच्छर्शरोचकाः । आरयोपदेहमाधुर्यकासष्ठीवनपीन-

सा. ॥ ९२ ॥ हृदयं मन्यतेस्त्यानमुदरं
स्तिमितं गुरु। दुष्टं मधुरमुद्गर-
सदनं स्त्रीष्वहर्षणम् ॥ ९३ ॥ भित्रा-
मश्लेष्मसंसृष्टगुरुवर्चःप्रवर्तनम् । अ-
कृशस्यापि दौर्बल्यमालस्यश्च कफा-
त्मके ॥ ९४ ॥

भारी, अत्यन्त चिकने और शीतल पदार्थोंके सेवन करनेसे, अत्यंत भोजन करनेसे एवं भोजन करते ही सो रहनेसे कफ कुपित होकर अग्निको मंद कर देता है । तब उस मनुष्यके खाया हुआ अन्न कठिनतासे पचता है, उबकाई, वमन और अरुचि हो, मुखमें कफ लिसा रहे और मीठापन, खोंसी आनेसे वारंवार कफको थुके, पीनस (जुकाम), हृदय भाँजासा मालूम हो, उदरमें भारीपन और जडता हो, दुष्ट मीठी डकारे आवे, ग्लानि, धीमे अनिच्छा, फटासा, एवं आम और कफ सहित भारी मल उतरे, ऊपरसे शरीर पुष्ट दीखनेपर भी दुर्बलता और आलस्यका होना, इत्यादि लक्षणोंसे कफकी संग्रहणी जाननी ॥ ९१॥९२॥९३॥९४॥

ग्रहण्यां कफदुष्टायां तीक्ष्णैः प्रच्छर्दने
कृते । लवणांलकटुक्षारैः क्रमाद्वि-
विवर्द्धयेत् ॥ ९५ ॥

कफकी संग्रहणीमें रोगीको तीक्ष्ण औषधियोंके द्वारा वमव करावे । तथा लवण, अम्ल, कटु और क्षार द्रव्योंसे क्रमपूर्वक जठराग्निको दीपन करे ९५

शुण्ठी मुस्तं विडङ्गश्च सुरातक्रोष्ण-
दारिणा । श्लैष्मिकं ग्रहणीदोषं पीतं
हन्त्यग्निवर्द्धनम् ॥ ९६ ॥

सोठ, नागरमोथा और वायविडंग इनके चूर्णको सुरा, तक्र अथवा गरम जलके साथ सेवन करे तो अवश्य कफजसंग्रहणी रोग नष्ट होता है ॥९६॥

यवागूविधि ।

पालाशं चित्तकं चव्यं मातुलुङ्गं हरी-
तकीम । पिप्पली पिप्पलीमूलं पाठां
धान्यकनागरम् ॥ ९७ ॥ कर्षिकानु-

दकप्रस्थे पक्ता पादावशोपिते । पा-
नीयार्थं प्रयुजीत यवागूं तैश्च साधि-
ताम् ॥ ९८ ॥

ढाकके बीज, चीता, चव्य, विजौरा नींबू, हरड़, पीपल, पीपलामूल, पाठ, घनियों और सोठ ये प्रत्येक एक २ कर्ष लेकर एक प्रस्थ जलमें पकावे । जब चौथाई भाग जल शेष रह जाय तो उतार कर छान लें । इसके द्वारा यवागूको मिद्ध करके पाँवे ॥९७॥९८॥

पिप्पल्यादि चूर्ण ।

समूलां पिप्पलीं क्षारैः द्वौ पञ्च ल-
वणानि च । मातुलुङ्गामयारास्ता-
शटीमरिचनागरम् ॥ ९९ ॥ कृत्वा
समांशं तच्चूर्णं पिवेत्प्रातःसुखांबुना ।
श्लैष्मिके ग्रहणीदोषे बलमांसाग्निव-
र्द्धनम् ॥ १०० ॥

पीपल, पीपलामूल, जवाखार, राजी, पाँचनेमक, विजौरानीम्बू, हरड़, रास्ता, कचूर, मिरच और सोठ इन सब औषधियोंको समान भाग लेकर चूर्ण करके मंदोष्णजलके साथ प्रातःकाल पीवे तो कफज संग्रहणी रोग नष्ट होता है, तथा बल मांस और जठराग्निकी वृद्धि होती है ॥ ९९ ॥ १०० ॥

व्योषं साक्षरत्वचं वत्सं चूर्णयेत्तण्डुला-
म्बुना । निपीतं ग्रहणीदोषकामला-
पाण्डुरोगजित् ॥ १०१ ॥ प्रमेहारु-
च्यतीसारगुल्मशोथज्वरापहम् ॥ १०२ ॥

त्रिकुटा, आमकी छाल और कुडकी छाल, इनको एकत्र पीसकर चावलोके जलके साथ पान करे इससे संग्रहणीरोग, कामला, पाण्डुरोग, प्रमेह, अरुचि, अतीसार, गुल्म, शोथ और ज्वर नष्ट होता है ॥ १०१ ॥ १०२ ॥

भल्लातकक्षार ।

भल्लातकं त्रिकटुकं त्रिफला लवण-
त्रयम् । अन्तर्धूमं द्विपलिकं गोपुरीषा-
ग्निना दहेत् ॥ १०३ ॥ सक्षारः स-
र्पिषा पीतो भोज्यैश्चाप्यथ चूर्णितः ।
हृत्पाण्डुग्रहणीदोषगुल्मोदावर्तशूल-
नुत् ॥ १०४ ॥

मिलावे, त्रिकुटा, त्रिफला, कालानमक, सैधान-
मक और कचियानमक इनको दो दो पल लेकर अन्त-
र्धूमकी रीतिसे आरने उपलोकी अग्निसे पकावे । जब
स्वांग शीतल हो जाय तब निकालकर चूर्ण करले,
फिर उसमें जवाखार और घी मिला कर सेवन करे ।
यह-हृदयरोग, पाण्डुरोग, संग्रहणो, गुल्म, उदावर्त
और शूलको नष्ट करता है ॥ १०३ ॥ १०४ ॥

दुरालभादिक्षार ।

दुरालभाकरञ्जौ द्वौ सतपर्णं सवत्स-
कम् । षड्ग्रन्था मदनं मूर्वा पाठा-
चारग्वधं तथा ॥ १०५ ॥ गोमूत्रे च
समांशानि कृत्वा चूर्णानि दापयेत् ।
दग्ध्वा तत्र पिबेक्षारं बलवर्णा-
श्रिवर्द्धनम् ॥ १०६ ॥

धमासा, करंज, वडीकरंज, सतौना, कुडेकी छाल,
वच, मैनफल, मूर्वा, पाठ और अमलतास इन सब-
को समान भाग लेकर चूर्ण करके गोमूत्रमें मिलाकर
दग्ध करे पश्चात् उस क्षारको पान करे तो बल, वर्ण
और अग्निकी वृद्धि होती है ॥ १०५ ॥ १०६ ॥

भूनिम्बादि क्षार ।

भूनिम्बं रोहिणी तिक्ता पटोलं नि-
म्बपर्पटम् । दहेन्माहिषमूत्रेण क्षार
एषोऽश्रिवर्द्धनः ॥ १०७ ॥

चिरायता, कुटकी, पाठ, पटोलपत्र, नीमकी छाल
और पित्तपापडा इनको भैसके मूत्रमें मिलाकर दग्ध
करे । यह भूनिम्बादि क्षार अग्निको दीपन करनेवाला
है ॥ १०७ ॥

हरिद्रादिक्षार ।

द्वे हरिद्रे वचा कुष्ठं चित्रकं कटु-
रोहिणी । मुस्तकं वस्तमूत्रेण सिद्धः
क्षारोऽश्रिवर्द्धनः ॥ १०८ ॥

हल्दी, दारुहल्दी, वच, कूठ, चीता, कुटकी और
नागरमोथा इनको बकरीका मूत्र मिलाकर जलावे
यह क्षार अग्निको बढ़ानेवाला है ॥ १०८ ॥

महाक्षार ।

यवक्षारं दशपलं सैन्धवं द्विगुणं भ-
वेत् । भल्लातकानि त्रिवृता चित्रकं

त्रिफलात्वचः ॥ १०९ ॥ स्नुह्यर्कयोश्च
दुग्धश्च तैलस्य च घृतस्य च । प्रस्थं
प्रस्थं समावाप्य चूर्णैरेतैर्विमिश्रयेत्
॥ ११० ॥ तदाहयेन्महाक्षारं पायये-
च्च सुखाम्बुना । ग्रहणीदीपने श्रेष्ठो
गुल्मार्शःकृमिनाशनः ॥ १११ ॥

जवाखार १० पल, सैधानोन २० पल, एवं मि-
लावे, निसोत, चीता, त्रिफला और दारचीनी इन
सबको एक २ प्रस्थ लेकर एकत्र चूर्ण कर एक प्रस्थ
थूहरके दूध, एक प्रस्थ आकके दूध, एक प्रस्थ तिलके
तेल और एक प्रस्थ घी इनमें सबको मिलाकर
यथाविधिसे दग्ध करे । इस महाक्षारको गरम जलके
साथ पान करे । यह अग्निको दीपन करनेवाला, तथा
गुल्म, बवासरि और कृमिरोगको हरनेवाला है ॥
॥ १०९ ॥ ११० ॥ १११ ॥

वार्ताकुगुटिका ।

चतुष्पलं सुधाकाण्डात्रिपलं लवण-
त्रयात् । वार्ताकात्कुडवश्चार्काद्विल्वे
द्वे चित्रकात्पले ॥ ११२ ॥ दग्धा तु
वार्ताकुरसे गुटिका भोजनोत्तरम् ।
भुक्ताभुक्तं पचत्याशु कासश्वासांश-
सां हिता । विषूचिकाप्रतिश्याय-
हृद्रोगघ्ना च सा मता ॥ ११३ ॥

थूहरकी लकड़ी १६ तोले, तीनों लवण १२ तोले
वैगुन १६ तोले, आक २ पल, बेलगिरी २ पल और
चीता २ पल, इन सबको एकत्र अग्निमें जलाकर
वैगुनके रसमें गोलिये बनालेवे । इन गोलियोको
भोजनके पश्चात् सेवन करे तो क्थिण हुआ भोजन
शीघ्र पचता है और संग्रहणी दूर होती है । खोंसी,
श्वास और अर्श रोगमें यह अत्यन्त हितकारी है ।
एवं विषूचिका, प्रतिश्याय और हृदयरोगमें विशेष-
कर उपयोगी है ॥ ११२ ॥ ११३ ॥

मध्वारिष्ट ।

नवपिप्पलीमध्वाक्ते कलशेऽगुरुधू-
पिते । मध्वाटकं जलसमं चूर्णानि-
मानि दापयेत् ॥ ११४ ॥ कुडवार्धं
विडङ्गस्य पिप्पल्याः कुडवं तथा ।

चतुर्कांशं त्वक्क्षिरं केसरं मरिचा-
नि च ॥ ११५ ॥ त्वगेलापत्रकर्चूरं क्र-
मुकातिविषाधनान् । हरेण्वेले तु ते-
जोहां पिप्पलीमूलचित्रकान् ॥ ११६ ॥
कर्षिकं संस्थितं मांसमेतदूर्ध्वं नियो-
जयेत् । मन्दं सन्दीपयत्यग्निं करोति
विषमं समम् ॥ ११७ ॥ हृत्पांडुरह-
णीरोगकुष्ठार्शःश्वयथुज्वरानां वातश्ले-
ष्मामयांश्चान्यानरिष्टोऽयं व्यपोहति ११८

नौ पीपलोको वारिक पीसकर जहदमे मिलाकर एक कलशके भीतर लेप कर देवे, फिर उस कलशके अगरीकी धूपसे सुवासित कर उसमें एक आठक परिमाण जहद व एक आठक जल, एवं वायविडग ८ तोले, पीपल १६ तोले, वंशलोचन ४ तोले, नागकेशर, कालीमिरच, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात, कचूर, सुपारी, अतीस, नागरमोथा, रेणुक, वडी इलायची, तेजवल, पीपलामूल और चीता ये प्रत्येक एक २ कर्ष प्रमाण भरकर रख देवे, इस प्रकार इसको एक महीने तक रक्खा रहने देवे । एक महीनेके पश्चात् इसको निकालकर सेवन करे तो यह मन्दाग्निको दीपन करता है और विषम अग्निको समान करता है तथा हृदयरोग, पांडुरोग, संग्रहणी, कोठ, ववासीर, सूजन, ज्वर और वात कफके रोगोको नष्ट करता है ॥ ११४ ॥ ११५ ॥ ११६ ॥ ११७ ॥ ११८ ॥

मधूकपुष्पासव ।

द्रोणं मधूकपुष्पाणां विडङ्गस्य ततोऽ-
र्थतः । चित्रकस्य ततोर्ध्वं तथा भ-
ल्लातकाठकम् ॥ ११९ ॥ मञ्जिष्ठाष्ट-
पलं तुय्ये द्रोणेऽपञ्च विषाचयेत् । द्रो-
णावशेषं तच्छीतं मध्वाठकसमन्वि-
तम् ॥ १२० ॥ एलामृणालपुरुभि-
श्चन्दनागुरुधूपिते । कुम्भे मासि स्थि-
ते तापे मासान्ते तं वियोजयेत् ॥ १२१ ॥
ग्रहणीं दीपयत्येष वृंहणो रक्तपित्त-
नुत् । शोथकुष्ठकिलासानां प्रमेहा-
नाञ्च नाशनः ॥ १२२ ॥

महुएके फूल १ द्रोणपरिमाण, वायविडग आधा द्रोण, चीता १ आठक, मिलावे १ आठक और मजीठ ८ पल इन सबको १ द्रोण जलमें पकावे, जब १ द्रोण जल शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे, फिर जीतल हानेपर १ आठक परिमाण जहद मिलादेवे, फिर इलायची, कमलकी नाल, गृगल, चन्दन और अगरसे धूपित किये हुए एक कलशमें उपरोक्त द्रव्योंको भरकर रख देवे। इसप्रकार एक महीने पर्यन्त रक्खा रहने देवे, पश्चात् निकालकर इसको सेवन करे। यह आसव ग्रहणी अर्थात् अग्निको दीपन करता है एवं रक्तपित्तको नष्ट करता है, पुष्टिकर्ता तथा सूजन, कुष्ठ, किलासकुष्ठ और प्रमेहको नष्ट करता है ॥ ११९ ॥ १२० ॥ १२१ ॥ १२२ ॥

दशमूलासव ।

द्विपञ्चमूलरजनीजीवकर्षभचित्रकानां
पृथक्पञ्चपलैर्भागैश्चतुर्द्रोणेऽम्भसःपचेत्
॥ १२३ ॥ द्रोणशेषे रसे पृते गुडस्य
कुडवं क्षिपेत् । चूर्णितान्पालिकान्सर्वा-
न्दद्याञ्चाव समाक्षिकान् ॥ १२४ ॥ प्रियं-
गुपुष्पं मञ्जिष्ठा विडङ्गं मधुकं कणाम् ।
लोध्रं सावरकं चैव मासाद्धिं स्थाप-
येत्क्षितौ ॥ १२५ ॥ दशमूलासवः
सिद्धो दीपनो रक्तपित्तनुत् । आना-
हकफहृद्रोगपाण्डुरोगाङ्गसादनुत् १२६

बेलगिरी, उयोनाक, कुम्भेर, पाढल, अरणी, शाल-
पर्णी, पृष्टिपर्णी, गोखरू, कटेरी, वडी कटेरी, हल्दी,
जीवक, कृपभक और चीता ये प्रत्येक पांच २ पल
लेकर चार द्रोण जलमें पकावे जब एक द्रोण जल
शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे फिर उसमें ८ पल
गुड, ८ पल शहद, फूलप्रियंगु, मजीठ, वायविडग,
मुलैठी, पीपल और सफेद लोध ये प्रत्येक चार २
तोले पीसकर मिला देवे इसको पृथ्वीमें १५ दिनतक
गाढ देवे, फिर निकाल लेवे तो दशमूलासव तैयार
होता है । यह—अग्निको दीपन करनेवाला, रक्तपि-
त्तनाशक तथा आनाह, कफ, हृदयरोग, पाण्डुरोग,
और शरीरके अंगफूटनको दूर करनेवाला है १२३ ॥
॥ १२४ ॥ १२५ ॥ १२६ ॥

पिंडासव ।

प्रास्थिकी पिप्पली प्रस्थं गुडं प्रस्थं
विभीतकम् । उदकप्रस्थसंयुक्तं यवप्र-
स्थं निधापयेत् ॥ १२७ ॥ तस्मात्सु-
जातात्तु पलं सलिलाञ्जलिसंयुतम् ।
पिवेत्पिंडासवो ह्येष रोगानीकवि-
नाशनः ॥ १२८ ॥ स्वस्थोऽपि यः पिवे-
न्मांसं नरः स्निग्धरसाशनः । तस्याग्निं
दीपयत्येष आरोग्याय प्रकीर्तितः १२९

पीपल १ प्रस्थ, गुड १ प्रस्थ, वेहडा १ प्रस्थ, जल १
प्रस्थ और जौ १ प्रस्थ सबको यथाविधिसे मिलाकर
पृथ्वीमे गाड देवे. १५ दिनके पश्चात् निकाल कर छान
लेवे । इसप्रकार यह आसव सिद्ध होता है उससेसे
चार तोले लेकर एक कुडवपरिमाण जलके साथ पान
करे । यह पिण्डासव सर्वरोगोका नाश करनेवाला है ।
जो स्वस्थ मनुष्य भी इसको एकमहीनेपर्यंत सेवन करे
और स्निग्धरसवाले पदार्थोका भोजन करे तो उसकी
अग्नि अत्यन्त दीपन होजाती है । यह आरोग्यके
लिये कहा है ॥ १२७—१२९ ॥

बृहतीचित्रकक्षारघृत ।

बृहतीचित्रकक्षारः सप्तवारपरिसृतः ।
द्विगुणेन घृतं पक्वं वर्द्धयत्याशु पाव-
कम् ॥ १३० ॥

बृहती (बड़ीकटेरी) और चीता इनका सातवार
टपकाया हुआ खार लेकर दुगुने घृतके साथ पकावे।
यह जीघ्र ही जठराग्निको बढ़ाता है ॥ १३० ॥

श्लेष्मग्रहणीपरघृत ।

स्यान्माद्यं जाठरस्याग्नेर्यस्य ग्यात्र
बलच्युतिः । तस्य बह्निकरैः पक्वं
युक्तियुक्तं हितं घृतम् ॥ १३१ ॥

जिसकी जठराग्नि मंद होगई हो और दम्त न
आता हो उस संग्रहणीरोगीके अग्निको दीपन करने-
वाले युक्तिसे सिद्ध किए हुए घृतको सेवन करावे १३१

त्रिदोषजग्रहणी ।

पृथग्वातादिनिर्दिष्टहेतुलिङ्गसमागमे ।
त्रिदोषं निर्दिशेदेवं तेषां वक्ष्यामि
लक्षणम् ॥ १३२ ॥

वातादि तीनों दोषोंके कुपित होनेके पृथक् पृथक्
जो कारण कहे हैं उन सब कारणोंसे तीनों दोष
कुपित हांकर अग्निको मंद करके संग्रहणी उत्पन्न
करते हैं उनमें तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं उनको
कहता हूँ ॥ १३२ ॥

त्रिदोषे विधिवद्वैद्यः पञ्चकर्मणि
कारयेत् । सर्वजायां ग्रहण्यन्तु सा-
मान्यो विधिरीक्ष्यते ॥ १३३ ॥ दी-
पनान्यन्नपानानि चूर्णारिष्टं घृतानि
च । प्रविभज्य यथाऽवस्थं सर्वजे ब-
स्तिकर्म च ॥ १३४ ॥ घृतक्षाराऽऽसवाऽरि-
ष्टान्दद्यादग्निविवर्द्धनान् ॥ १३५ ॥

त्रिदोषज संग्रहणीमे प्रथम वमन विरेचनादि पंच
कर्म करावे उससे साधारण विधि कहते हैं—अग्निको
दीपन करनेवाले अन्न, पान, चूर्ण, अरिष्ट और घृत
तथा वस्तिकर्म ये सब त्रिदोषज संग्रहणीमे अवस्थाको
विचार कर प्रयोग करे तथा अग्निको बढ़ानेके लिये
घृत, क्षार, आसव और अरिष्ट देवे ॥ १३३ ॥
॥ १३४ ॥ ॥ १३५ ॥

शतावरीघृत ।

शतावरीचन्दनपद्मकोत्पलं प्रियंगुपा-
ठामगधास्थिराभिः । बिल्वाजमो-
दातिविषासमंगा जीवन्तिवह्नीन्द्रय-
वैः सुपिष्टैः ॥ १३६ ॥ घृतं कषाये तु
कलिङ्गकानां पक्वं निहन्याद्ग्रहणीं
त्रिदोषाम् । पित्तातिसारं रुधिर-
प्रवाहं तथार्शसो दोषसमूहबन्धम्
॥ १३७ ॥

शतावर, चन्दन, पद्माख, कमल, फूलप्रियंगु,
पाठ, पीपल, शालिपर्णी, बेलगिरी, अजमोद, अतीस,
लज्जावंती, जीवन्ती, चीता और इन्द्रजौ इनके कल्क
और कुडेकी छालके द्वारा घृतको सिद्ध करे । यह
त्रिदोषज संग्रहणी, पित्तातिसार, रुधिरका स्राव और
रुधिरकी बवासीरको नष्ट करता है ॥ १३६ ॥ १३७ ॥

आरुष्करघृत ।

आरुष्करं हिङ्गुकणा सयष्टी पृतीकि-
शुण्ठीमरिचं गजाह्वा । अजाजी चव्या

रुचः सवह्निमूलं विडङ्गं सह दी-
प्यकञ्च ॥ १३८ ॥ सक्षारहिङ्गुत्रिक
द्व्यग्रमन्था पलार्धभागैर्विपचेद्विधिज्ञः
॥ १३९ ॥ अत्र धान्याकचांगेरीदशमू-
लीसमं पृथक् । हविःप्रस्थं निहन्त्या-
शु ग्रहणीं सर्वजां नृणाम् ॥ १४० ॥
विष्टम्भमामजान्नोगान्कृमिजान्कुक्षिजां-
स्तथा । मन्दानलभवान्सर्वात्रभस्वा-
निव वारिदम् ॥ २४१ ॥

भिलावे, हींग, पीपल, मुलैठी, दुर्गन्धकरंज, सोंठ,
मिरच, गजपीपल, जीरा, चव्य, कालानमक, चीतेकी
जड, वायविडंग, अजवायन जवाखार, हींग, त्रिकुटा और
वच इनको दो दो तोले लेकर विधिपूर्वक काथ बनावे
तथा धनियाँ, चांगेरी, दशमूल इनका काथ समान
भाग और १ प्रस्थ घी लेवे। सबको मिलाकर विधिपूर्वक
घृतको सिद्ध करे। इस घृतको सेवन करनेसे—सर्व
प्रकारकी संग्रहणी विष्टम्भरोग, आमसे उत्पन्न हुए
रोग, कृमिसे उत्पन्न हुए रोग, उदरके समस्त रोग
और मंदाग्निसे उत्पन्न हुए रोग नष्ट होजाते हैं जिसप्र-
कार पवनसे बादल नष्ट होजाते हैं ॥ १३८ ॥ १३९ ॥
१४० ॥ १४१ ॥

संग्रहणीके लक्षण ।

अन्त्रकूजनमालस्यं दौर्बल्यं सदनं
तथा । द्रवं घनं सितं स्निग्धं सकटी-
वेदनं शकृत ॥ १४२ ॥ आमं बहु
सपैच्छिल्यं सशब्दं मन्दवेदनम् ।
पक्षान्मासाद्दशाहाद्वा नित्यं वापि
विक्षुब्धति ॥ १४३ ॥ दिवा प्रकोषो भव-
ति रात्रौ शान्तिं व्रजेच्च सा । दुर्वि-
ज्ञेया दुर्निवारा चिरकालानुब-
न्धिनी । सा भवेदामवातेन संग्रहग्रह-
णी मता ॥ १४४ ॥

आँते बोलें, आलस्य जिसमें हो, शरीरमें दुर्बलता,
अंगकूटन हो, मल पतला, गाढा, सफेद, चिकना,
उतरे क्रममें पीडा हो, आम (अपक) कच्चा अत्यन्त
पिच्छल शब्दयुक्त, मन्द पीडायुक्त एक एक पक्षमें

अथवा एक महीनेमें किंवा दश दिनमें अथवा नित्य
दस्त आवे, तथा रोगका प्रकोप दिनमें अधिक
हो और रात्रिमें शांत होजाय उसको अतिदुर्विज्ञेय,
दुस्तर और बहुत कालतक रहनेवाली संग्रहणी
जाननी । यह आमवातसे उत्पन्न होती है ॥ १४२ ॥
॥ १४३ ॥ १४४ ॥

संग्रहणीकी चिकित्सा ।

मसूरयूषः संपीतः काथो नागरवि-
ल्वजः । संग्रहग्रहणीं हन्ति तक्रेण
बृहती तथा ॥ १४५ ॥


मसूरका यूप अथवा सोठ और वेलगिरीका काथ
किंवा बड़ी कटेरीके चूर्णको तक्रके साथ सेवन करने-
से संग्रहणीरोग नष्ट होता है ॥ १४५ ॥

मसूरघृत ।

विश्वाजाजी विल्वपेशी कल्कसिद्धं
घृतं हरेत् । मसूरस्य कषायेण संग्रह-
ग्रहणीगदम् ॥ १४६ ॥

सोठ, जीरा और वेलगिरी इनके कल्क और मसू-
रके काथके द्वारा घृतको सिद्ध करे। यह घृत संग्रहणी
रोगको दूर करता है ॥ १४६ ॥

गोतक्रके गुण ।



ग्रहणीरोगिणां तक्रं संग्राहि लघु दी-
पनम् ॥ सेवनीयं सदा गव्यं त्रिदोष-
शमनं हितम् ॥ १४७ ॥

संग्रहणीवाले मनुष्यको तक्रका सेवन संग्राही
(मलरोधक), हल्का और अग्निको दीपन करनेवाला
है। इस कारण संग्रहणीरोगियोंको सदैव गौका तक्र
सेवन कराना चाहिये। वह अत्यन्त हितकारक और
त्रिदोषको शमन करनेवाला है ॥ १४७ ॥

दुःसाध्यो ग्रहणीदोषो भेषजैर्नैव शा-
म्यति । सहस्रशोऽपि विहितैर्विना
तक्रस्य सेवनात् ॥ १४८ ॥

यह दुःसाध्य संग्रहणीरोग विना तक्र सेवन किये
हजारों औषधियोंसे भी शांत नहीं होता ॥ १४८ ॥

यथा तृणचयं वह्निस्तमांसि सविता
यथा । निहन्ति ग्रहणीरोगं तथा
तक्रस्य सेवनम् ॥ १४९ ॥

जिस प्रकार तृणोंके समूहको आग्नि और अंधकारके समूहको सूर्य्य नष्ट करदेता है, उसी प्रकार तक्रका सेवन संग्रहणीरोगको नष्ट करता है ॥ १४९ ॥

संग्राह्या धेनवः श्रेष्ठास्तक्रपानाय
रोगिणाम् । तासां पयस्तत्रगुणा
जायन्ते वर्णभेदतः ॥ १५० ॥

रोगियोंको तक्र पीनेके लिये उत्तम २ गौओंको संग्रह करे उन गौओंके दूधके गुण उनके वर्णभेदसे जानने ॥ १५० ॥

पीताया मारुतं हन्ति श्वेतायाः पित्त-
जान्गदान् । रक्ताया गोः कफं हन्ति
कृष्णाया गोस्त्रिदोषजित् ॥ १५१ ॥

पीली रंगकी गौका दूध-वातनाशक है । सफेद रंगकी गौका दूध-पित्तरोग नाशक है । लालगौका दूध कफनाशक है । काली गौका दूध-त्रिदोषनाशक है ॥ १५१ ॥

अरण्ये चारयेद्वैतूर्नातितृणलतान्विते
॥ १५२ ॥ पीतोदकाया विलम्भा-
न्मन्दं मन्दं प्रचारयेत् । तासां दुग्धं
परिग्राह्यं तक्रार्थं भिषजां वरैः ॥ १५३ ॥
दुग्धमक्वथितं वाते, पित्ते त्वीषत्कृतं
हितम् । कफे त्रिदोषजे रोगे पादोन-
क्वथितं शृतम् ॥ १५४ ॥

उन गौओंको ऐसे जंगलमें चरावे जहां बहुत तृण और लता न हो । फिर विश्राम कराकर झकोल कर उत्तम जल पिलाकर धीरे धीरे चरावे उन गौओंका दूध तक्रके लिये ग्रहण करे । वातरोगमें कच्चा दूध और पित्त रोगमें किंचित् औटाया हुआ तथा कफ रोगमें एवं त्रिदोषरोगमें चार भागका तीन भाग शेष रह जाय तब ग्रहण करे ॥ १५२ ॥ १५३ ॥ १५४ ॥

* हमारी सम्मति यह है कि कच्चा दूध पित्तरोगमें देना और औटाकर वात रोगमें देना चाहिये क्योंकि कच्चा दूध पेटमें जाकर हवा पैदा करता है ।

तदीषदम्लसंयोगात्काठिनं दधि
शस्यते । तदल्पजलसंयुक्तमथनं मथितं
भवेत् ॥ १५५ ॥

उस आँटायें हुए दूधका किंचित् दहीके जामनके या खटाईके योगसे काठिन दही जमावे फिर उसमें किंचित् जल डालकर रईसे मथकर उममेंसे घी निकाल लेवे ॥ १५५ ॥

तक्रमुद्धृतसारन्तु शुण्ठीचूर्णयुतं पिबेत् ॥
तक्रेण निर्बले जाते त्यक्ते
चान्नादिभोजने ॥ १५६ ॥ शरीरे
जातरूक्षत्वं शुक्लत्वं मूत्रनेत्रयोः ।
किञ्चित्स्निग्धं पिबेत्तक्रं ततश्चाधिक-
सारवत् ॥ १५७ ॥

तक्र और सोठका चूर्ण इनको एकत्र मिलाकर नित्य पीवे । तक्रसे जो निर्बलता उत्पन्न हो तो सर्वप्रकारके अन्नदिक त्याग कर केवल तक्रका सेवन करे । तक्रको सेवन करनेसे शरीरमें रूक्षता और मूत्र एवं नेत्रोंमें श्वेतता उत्पन्न होती है । प्रथम किंचित् स्निग्धता युक्त तक्रको पीवे पश्चात् अधिक स्निग्ध अर्थात् नवनीतसहित तक्रको पीवे ॥ १५६ ॥ १५७ ॥

तक्रं सनवनीतश्च पिबेन्नागरसंयुतम् ।
शनैः शनैर्हेरदन्नं तक्रन्तु परि-
वर्द्धयेत् ॥ १५८ ॥ तक्रमेव यथाहा-
रो भवेदन्नविवर्जितः । तक्रसात्म्यं
यथा कुर्यान्नैवान्नं तत्र भक्षयेत् ॥ १५९ ॥
बुभुक्षयां पिपासायां पिबेत्तक्रं सना-
गरम् । श्रमं न कुर्व्याद्बिहुशो न
कुर्व्याद्बिहुभाषणम् ॥ १६० ॥ न कु-
र्व्यान्मिथुनं तक्रपाने क्रोधं विवर्जये-
त् । एवं यः सेवते तक्रं ग्रहणी तस्य
नश्यति । शीघ्रमेव न सन्देहः श्री-
र्यथा द्यूतकारिणः ॥ १६१ ॥

नैनी बी युक्त तक्रको सोठके चूर्णके साथ सिलाकर पानकरे इसपर क्रमशः धीरे-धीरे अन्नको घटाता जाय और उसीप्रकार क्रमसे तक्रको बढ़ाता जाय उसको यहां तक बढ़ावे कि, अन्नका विलकुल त्याग करदेवे और केवल तक्रका ही आहार करे, जब भूख और प्यास

लंग न चि सोठके चूर्णके साथ तक्रको पान करे । इसमें—बहुत परिश्रम, बहुत भाषण (ज्यादा बोलना), मैथुन और क्रोध इन सबको त्याग देवे । इस प्रकार जो तक्रको सेवन करता है उसकी संग्रहणी शीघ्र ही नष्ट होजाती है । जिस प्रकार जुआ खेलनेवाले मनुष्यकी लक्ष्मी शीघ्र ही नष्ट होजाती है ॥ १५८-१६१ ॥

प्रशान्ते ग्रहणीरोगे अन्नं गृह्णाति योगतः । अन्नत्यागविधानेन गृह्णीयाच्च शनैः शनैः ॥ १६२ ॥

जब ग्रहणीरोग शांत होजाय तब अन्नको सेवन करे । जिसप्रकार अन्नको प्रथम घटाया था उसी क्रमसे बढ़ावे ॥ १६२ ॥

ग्रहणीरोगिणां तक्रं हितं दोषत्रयापहम् । कालकूटविषं साक्षादन्यथा परिसेवितम् ॥ १६३ ॥

संग्रहणीरोगियोंके लिये तक्रका सेवन—हितकारक और त्रिदोषनाशक है । परन्तु इससे विपरीत सेवन किया हुआ साक्षान् कालकूट विषके समान है १६३ ॥

तस्माद्यत्नेन संसेव्यं तक्रं संग्रहणीगदे । शस्तं नातःपरं किञ्चिद्ग्रहणीरोगशान्तये ॥ १६४ ॥

इस कारण यत्नपूर्वक संग्रहणीरोगमें तक्रको सेवन कराना चाहिये । संग्रहणीरोगको शांत करनेके लिये इससे उत्तम अन्य औषधि नहीं है ॥ १६४ ॥

आम्नातकाम्बजम्बूत्थे कषाये पादशेषिते । शालिसिद्धा यवागूस्तु भुक्त्वा कुक्ष्यामयं जयेत् ॥ १६५ ॥

आमोड, आम और जामुन इनके चतुर्थांश शेष काथमे जालिचावलोकी सिद्ध की हुई यवागू सेवन करनेसे कुक्षिरोग नष्ट होता है ॥ १६५ ॥

अंकोटमूलं धातक्यो बिल्वपेशी महौषधम् । कथितं शीतलं पेयं कुक्षिरोगहरं परम् ॥ १६६ ॥

अंकोलकी जड़, धातके फूल, बेलगिरी और सोठ इनके काथको शीतल करके पान करनेसे कुक्षिरोग नष्ट होता है ॥ १६६ ॥

अंकोटस्य त्रयो भागा भागश्चैकोऽनणामवः । तण्डुलादकसंपत्तिः सर्वकुक्ष्यामयापहः ॥ १६७ ॥

अंकोलकी जड़की छाल ३ भाग और अर्ताम १ भाग इन दोनों एकत्र पीसकर चावलोंके जलके साथ पान करनेसे सब प्रकारके कुक्षिरोग नष्ट होते हैं १६७ ॥

तत्रेण बलकलं पीतं स्निग्धं पथ्यातरुद्रवम् । ग्रहणीं नाशयेत्क्षिप्रमाप्तरक्ताश्रितां ध्रुवम् ॥ १६८ ॥

हरडके वृक्षकी छालको तक्रमे पीसकर मेवन करनेसे आम और रक्तयुक्त संग्रहणी नष्ट होती है ॥ १६८ ॥

स्विन्नानि बालबिल्वानि खादेत्क्षौद्रेण मानवः । तत्रेणानलगभेण साद्धं तद्ग्रहणीं जयेत् ॥ १६९ ॥

उसीजे हुए कच्चे बेलको गहदकं साथ सेवन करनेसे अथवा चीतेके चूर्णको तक्रके साथ सेवन करनेसे संग्रहणीरोग नष्ट होता है ॥ १६९ ॥

बालबिल्वबलाशुण्ठीधातकीमुस्तधान्यकैः । कषायेः साधिता हन्ति यवागूर्ग्रहणीगदम् ॥ १७० ॥

कच्चाबेल, खिरैटी, सोठ, धातके फूल, नागरमोथा और धनियाँ इनके काथके द्वारा सिद्ध की हुई यवागू संग्रहणीरोगको नष्ट करती है ॥ १७० ॥

जम्बूदाडिमशृङ्गाटपाठाकश्चटपल्लवैः ॥ १७१ ॥ पक्कं पर्युषितं बालबिल्वं सगुडनागरम् । हन्ति सर्वानतीसारान्ग्रहणीमतिदुस्तराम् ॥ १७२ ॥

जामुन, अनार, सिहाडे, पाठ और जलचौलाईके पत्ते इनके वासी काथमे कच्चे बेलको उसीजे लेवे, पश्चात् उसमें गुड और सोठ मिलाकर सेवन करे तो सब प्रकारके अतीसार और अत्यन्त दुस्तर संग्रहणीरोग नष्ट होता है ॥ १७१ ॥ १७२ ॥

चांगेरघृत ।

चाङ्गेरीस्वरसे दद्याद् घृतप्रस्थं चर्तु-
गुणे । अजाक्षीरस्य च प्रस्थं पिवे-
त्सर्पिरिहोषधैः ॥ १७३ ॥ व्योषवि-
त्वकपित्थानि समङ्गाधातकी घनम् ।
अजाज्यतिविषा मोचा धान्यको-
त्पलवालकम् ॥ १७४ ॥ बला यवा-
निकाग्निश्च पाठा ग्रन्थिकदाडिमम् ।
अक्षप्रमाणैरेतैस्तु सर्पिः सिद्धं महा-
गुणम् ॥ १७५ ॥ ग्रहण्यशौविकारघ्नं
शूलगुल्मज्वरापहम् । कफवातारु-
चिहरं बलवर्णाग्निवर्धनम् ॥ १७६ ॥
कृमिदोषगुद्भ्रंशयकृत्प्लीहामयापह-
म् । सर्वातिसारशमनं ग्रहणीदीपनं
परम् ॥ १७७ ॥

चांगेरीका स्वरस ४ प्रस्थ, घी १ प्रस्थ, वकरीका
दूध १ प्रस्थ, तथा त्रिकुटा, बेलगिरी, कैथ, मजीठ,
धायके फूल, नागरमोथा, जीरा, अतीस, मोचरस,
धनियौ, कमल, सुगन्धवाला, खिरटी, अजवायन,
चीता, पाठ, पीपलामूल और अनार इन प्रत्येकका
कल्क एक २ तोला इन सबको यथाविधि मिलाकर
घृतको सिद्ध करे यह चांगेरी घृत-अत्यन्त गुणवाला
है । संग्रहणी, ववासीर, शूल, गुल्म, ज्वर, कफ, वात,
अरुचि, कृमिदोष, गुद्भ्रंश, यकृत, प्लीहारोग और
सब प्रकारके अतीसारको नष्ट करनेवाला है । बल
वर्ण और अग्निको बढ़ानेवाला है एवं ग्रहणीको दीपन
करनेवाला है ॥ १७३-१७७ ॥

बृहच्चांगेरीघृत ।

पिप्पली नागरं पाठा श्वदंष्ट्रा च पृथक्
पृथक् । भागांस्त्रिपलिकान्दत्त्वा
कषायमुपकल्पयेत् ॥ १७८ ॥ गंडारी
पिप्पलीमूलं व्योषं चव्यकचित्रकम् ।
पिष्ट्वा कल्कं क्षिपेत्काथे द्रव्यैरर्धपलैः
पृथक् ॥ १७९ ॥ पलानि सर्पिषश्चात्र
चत्वारिंशत्प्रदापयेत् । चांगेरीस्वरसं
तुल्यं सर्पिषा दधि षड्गुणम् ॥ १८० ॥

मृद्वाग्निना साधयेत्सर्पिः सिद्धं नि-
धापयेत् । तदाहारे विधातव्यं पाने
च यौगिकैर्दुधैः ॥ १८१ ॥ ग्रहण्य-
शौविकारघ्नं गुल्महृद्गोनाशनम् ।
शोथप्लीहौदरानशौमूत्रकृच्छ्रज्वराप-
हम् ॥ १८२ ॥ कासहिककारुचिश्वास-
सदनं पार्थशूलनुत । बलपुष्टिवर्ण-
करमाग्निसन्दीपनं परम् ॥ १८३ ॥

पीपल, सांठ, पाठ और गोखरू ये प्रत्येक तीन
२ पल लेकर सोलह गुने जलमें पकावे, जब जल
पककर अष्टावशेष रह जाय तब उतारकर छान लेंवें
पश्चात् उसमें मजीठ, पीपलामूल, त्रिकुटा, चव्य
और चिता ये प्रत्येक दो दो तोल लेकर कल्क बनाकर
मिलादेवे और घी ४० पल, चांगेरीका स्वरस ४०
पल एवं घीसे छ गुना दही लेंवें सबको यथाविधि एकत्र
करके मंद २ अग्निसे घृतको पकावे । इस बृहच्चांगेरी
घृतको आहार और पानमें व्यवहार करे । इसके
सेवन करनेसे—संग्रहणी, ववासीर, गुल्म, हृदयरोग,
सूजन, प्लीहा, उदररोग, मूत्रकृच्छ्र, ज्वर, खाँसी,
हिचकी, अरुचि, ज्वास, अगकी ग्लानि और पस-
लियोकी पीडा दूर होती है । तथा बल, पुष्टि और
वर्णकी वृद्धि होती है, जठराग्नि दीपन होती है
॥ १७८—१८३ ॥

अत्र गण्डार्यादिचित्रकांतौस्त्रिपलिकै-
रोभिः षोडशगुणैर्जलैस्तथा काथ-
येद्यथा कषायः स्नेहसमत्वं भव-
तीति ।

इन औषधियोंमें गण्डारीसे चित्रकतक जितनी
औषधि है उनको तीन २ पल लेकर उनके सोलह
हिरसे जलसे काथ करे जिससे काढा स्नेह (घी, तैल
की समान) हो जाय ॥

मुस्तकातिविषाविल्वचूर्णितं कौटजं
तथा । मधुना वापि संलीढं ग्रहणीं
हन्ति सर्वजाम् ॥ १८४ ॥

नागरमोथा, अतीस, बेलगिरी और इन्द्रजौ इन
सबको एकत्र पीसकर गहदमें मिलाकर सेवन करे
तो सब प्रकारकी संग्रहणी नष्ट होती है ॥ १८४ ॥

पञ्चकोलकसुखिवन्नं बालविल्वं गुडा-
न्वितम् । शेषाद्रवानुपानं स्यात्संग्रह-
ण्यतिसारनुत् ॥ १८५ ॥

कच्चे बेलको पंचकोलके काथमे उसेकर गुडमे मिलाकर पंचकोलके उसी काथके साथ पान करनेसे संग्रहणीरोग और अतीसाररोग नष्ट होता है ॥ १८५ ॥

श्वेतो वा यदि वा रक्तः प्रपक्वो ग्रह-
णीगदः । गुडेनाधिकसंज्ञेन भक्षिते-
नाशु नश्यति ॥ १८६ ॥

जो संग्रहणी रोग पक्व जाय और उसमे श्वेत अथवा लाल दस्त आवे तो अधिकतर गुड भक्षण करे उससे शीघ्र ही संग्रहणीरोग नष्ट होता है ॥ १८६ ॥

विल्वाब्दशक्रयवबालकमोचसिद्ध-
माजं पयः पिबति यो दिवसत्रयञ्च ।
सोऽतिप्रवृद्धचिरजं ग्रहणीविकारं
शेषं सशोणितमसाध्यमपि क्षिणो-
ति ॥ १८७ ॥

जो बेलगिरी, नागरमोथा, इन्द्रजौ, सुगन्धवाला और मोचरस इनको बकरीके दूधमें पकाकर उस दूधको तीन दिनतक पीवे तो इससे उसकी अधिक बढ़ी हुई बहुत पुरानी रुधिरयुक्त और असाध्य संग्रहणी नष्ट होजाती है ॥ १८७ ॥

भोजनार्थं समुद्गानां वचोवेगाविना-
शनम् । आरनालोदकैः पिष्टं प्रातः
पिष्टकभक्षणम् ॥ १८८ ॥

भाजनके लिये मूँगको कांजीके जलमे पीसकर उसके बडे बनाकर प्रातःकाल भक्षण करे इससे मलका वेग रुक जाता है ॥ १८८ ॥

केशराजोऽर्जुनक्षारं प्रातः पीतञ्च म-
स्तुना । निहन्ति सामयत्यर्थमधि-
राद्ग्रहणीरुजम् ॥ १८९ ॥

कुकुरभांगरा और अर्जुनके खारको प्रातःकाल दही के नोढके साथ पान करनेसे आमयुक्त बहुत दिनोंकी पुरानी संग्रहणी नष्ट होती है ॥ १८९ ॥

कपित्थमधिलीद्विव सव्याषं क्षौद्रश-
र्करम् । कट्फलं मधुसंयुक्तं मुच्यते
जठरामयात् ॥ १९० ॥

कैथकों गहदमें मिलाकर चाटनेमें अथवा त्रिकु-
टके चूर्णको गहद और मिश्रीके साथ सेवन करनेमें
किम्वा कायफलके चूर्णको गहदमें मिलाकर चाट-
नेसे उदररोग नष्ट होता है ॥ १९० ॥

अष्टपलकवृत ।

अष्टपलकवृत । अष्टपलकवृतं गुडा-
त्पले । सर्पिपोऽष्टपलं पक्वा मात्रां
मन्दानलः पिबेत् ॥ १९१ ॥

त्रिकुटा, त्रिफला और बेलगिरी इन प्रत्येकका कल्क १-१ पल तथा गुड एक पल और घी ८ पल मिलाकर घृतको सिद्ध करे । इस घृतको पान करनेसे मन्दाग्नि नष्ट होती है ॥ १९१ ॥

विल्वादि घृत ।

विल्वाग्निचव्यार्द्रकभृङ्गवैरेः काथेन
कल्केन च सिद्धमाज्यम् । सच्छागदुग्धं
ग्रहणीगदोत्थे शोथाग्निसादाऽरुचि-
नुद्गरिष्ठम् ॥ १९२ ॥

बेलगिरी, चीता, चव्य, अदरख और सोठ इनके कल्क तथा काथ और बकरीके दूधके द्वारा घृतको पकाकर सेवन करनेसे संग्रहणीरोगमें उत्पन्न हुई सूजन, अग्निकी मन्दता और अरुचि दूर होती है ॥ १९२ ॥

बृहन्मसूरादि घृत ।

मसूरस्य तुलाकाथे घृतप्रस्थं विपा-
चयेत् । पिप्पली पिप्पलीमूलं चव्य-
धित्रकनागरम् ॥ १९३ ॥ तत्सिद्धं
द्विगुणे क्षीरे ग्रहणीघ्नं त्रिदोषनुत् ।
दुर्लभानिलविष्टम्भं जयेच्चैव प्रवाहि-
काम् । बलवर्णकरं हृद्यमाग्निसन्दीपनं
परम् ॥ १९४ ॥

मसूरके (१०० पल) काथमे एक प्रस्थ घी, पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता और सोठ इनका कल्क और दूना बकरीका दूध मिलाकर घृतको सिद्ध करे । यह घृत संग्रहणीरोगको हरनेवाला, त्रिदोषनाशक, बवासीर, वातविष्टम्भ और प्रवाहिका रोगको नष्ट करता है । बल और वर्णको बढ़ानेवाला, हृदयको हितकारी और अग्निको दीपन करनेवाला है ॥ १९३ ॥ १९४ ॥

कापित्थाष्टक ।

यवानी पिप्पलीमूलं चतुर्जातिकना-
गैः । मरिचाग्निजलाजाजीधान्यसौ
वर्चलैः समैः ॥ १९५ ॥ वृक्षाम्लधा-
तकीकृष्णाबिल्वदाडिमदीप्यकैः ।
त्रिगुणैः षड्गुणसितैः कापित्थाष्टगुणैः
कृतः ॥ १९६ ॥ चूर्णैऽतिसारग्रहणीक्ष-
यगुल्मगुदामयान् । श्वासं कासाऽरु-
ची हिककां कापित्थाष्टमिदं जयेत् १९७ ॥

अजवायन, पीपलामूल, दालचीनी, तेजपात,
नागकेसर, इलायची, साठ, कालीमिरच, चीता,
सुगन्धवाला, जीरा, धनियौ और कालानमक, ये
सब एक २ भाग, त्रिशाविल, धान्यके फूल, पीपल,
बेलगिरी अनार और अजवायन ये प्रत्येक तीन २
भाग, मिश्री ६ भाग और कैथ ८ भाग इन सबको
एकत्र चूर्ण करके सेवन करे तो अतीसार, संग्रहणी,
क्षय, गुल्म, गुदके रोग, श्वास, खॉसी, अरुचि
और हिकका रोग दूर होते हैं ॥ १९५॥१९६॥१९७ ॥

मधूकपुष्पासव ।

मधूकपुष्पस्वरसं शृतमन्दक्षयीकृत-
म् । क्षौद्रपादयुतं शीतं पूर्ववत्सन्नि-
धापयेत् ॥ १९८ ॥ तं पीत्वा ग्रहणी-
दोषाञ्जयेत्सर्वाहिताशनः ॥ १९९ ॥

महुएके फूलोके स्वरसको मन्द २ अंग्रिसे पकावे फिर
उसमें चौथा भाग शहद मिलाकर जीतल करके
विविधपूर्वक आसवको सिद्ध करे । इसको पान करनेसे
सर्वप्रकारकी संग्रहणी और सबप्रकारके अतीसार नष्ट
होते हैं । इसपर पथ्य भोजन करे ॥१९८॥१९९॥

कल्याणगुड ।

प्रस्थत्रयेणामलकीरसस्य शुद्धस्य
दत्त्वार्धतुलां गुडस्य । चूर्णिकृतैर्भ्रान्धि-
कजीरचव्यव्योषिभकृष्णाहबुषाजमोदैः
॥ २०० ॥ विडङ्गसिन्धुत्रिफलायवा-
नीपाठाग्निधान्यैश्च पलप्रमाणैः ।

दत्त्वा त्रिवृच्चूर्णपलानि चाष्टा-
वष्टौ च तैलस्य पचेद्यथावत् ॥ २०१ ॥
तं भक्षयेदक्षफलप्रमाणं यथेष्टचेष्टस्त्रि-
सुगन्धियुक्तम् । अनेन सर्वे ग्रहणी-
विकाराः सश्वासकासस्वरभेदशो-
थाः ॥ २०२ ॥ शाम्यन्ति चायं
चिरमन्तरग्रेः हतस्य पुंस्त्वस्य च
वृद्धिहेतुः । स्त्रीणाञ्च बन्ध्यामयनाश-
नं स्यात्कल्याणको नाम गुडः प्रसि-
द्धः ॥ २०३ ॥

तेले त्रिवृन्मनाग्भ्रष्टस्त्रिसुगन्धि पलं
पलम् । सुसिद्धे निक्षिपेदत्र गुडे
कल्याणपूर्वके ॥

अडतालीस पल आमलोकं रसमे पचास पल शुद्ध
गुड डालकर पीपलामूल, जीरा, चव्य, त्रिकुटा, गजपीपल
हाऊवेर, अजमोद, धायविडंग, सैधानमक, त्रिफला,
अजवायन, पाठ और धनियौ इन प्रत्येकका चूर्ण चार
चार तोले निसोतका चूर्ण बत्तीस तोले तिलका तेल
बत्तीस तोले सबको यथाविधि मिलाकर गुडको सिद्ध
करे । सिद्ध होजानेके पश्चात् त्रिसुगन्धिका चूर्ण एक
२ पल डालकर प्रतिदिन इसमेंसे एक २ तोला प्रमाण
भक्षण करे । इससे सब प्रकारके संग्रहणी रोग, श्वास,
खॉसी, स्वरभेद और सूजन दूर होती है तथा बहुत
दिनोंकी मन्दाग्नि दीपन होती है, पुरुषत्व बढ़ता है
और स्त्रियोका बन्ध्यापन नष्ट होता है । इस कल्याण
गुडमें निसोतके चूर्णको तेलमें भूनकर और “त्रिसुग-
न्धि अर्थात् इलायची, दालचीनी और तेजपात इन
प्रत्येकका चूर्ण चार २ तोले मिलाना चाहिये” ॥
॥२०० ॥ २०१ ॥ २०२ ॥ २०३ ॥

महाकल्याणगुड ।

पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रको ह-
स्तिपिप्पली । धान्यकश्च विडङ्गानि
यवानी मरिचानि च ॥ २०४ ॥ त्रि-
फला चाजमोदा च नीलनी जीर-
कं तथा । सौवर्चलं सैन्धवश्च सामु-
द्रं रुचकं विडम् ॥ २०५ ॥ आरग्व-
धश्च त्वक्पत्रं सूक्ष्मैला चोपकुञ्चिका ।

पञ्चकोलकसुस्विन्नं बालबिल्वं गुडा-
न्वितम् । शेषाद्रवानुपानं स्यात्संग्रह-
ण्यतिसारनुत् ॥ १८५ ॥

कच्चे बेलको पंचकोलके काथमे उसेकर गुडमे
मिलाकर पंचकोलके उसी काथके साथ पान करनेसे
संग्रहणीरोग और अतिसाररोग नष्ट होता है ॥ १८५ ॥

श्वेतो वा यदि वा रक्तः प्रपक्वो ग्रह-
णीगदः । गुडेनाधिकसंज्ञेन भक्षिते-
नाशु नश्यति ॥ १८६ ॥

जो संग्रहणी रोग पक्व जाय और उसमे श्वेत अथवा
लाल रक्त आवे तो अधिकतर गुड भक्षण करे उससे
जीव ही संग्रहणीरोग नष्ट होता है ॥ १८६ ॥

बिल्वाब्दशक्रयवबालकमोचसिद्ध-
माजं पयः पिबति यो दिवसत्रयञ्च ।
सोऽतिप्रवृद्धचिरजं ग्रहणीविकारं
शेषं सशोणितमसाध्यमपि क्षिणो-
ति ॥ १८७ ॥

जो बेलगिरी, नागरमोथा, इन्द्रजौ, सुगन्धवाला
और मोचरस इनको बकरीके दूधमे पकाकर उस
दूधको तीन दिनतक पीवे तो इससे उसकी अधिकबढी
हुई बहुत पुरानी रुधिरयुक्त और असाध्य संग्रहणी नष्ट
होजाती है ॥ १८७ ॥

भोजनार्थं समुद्रानां वचोवैगाविना-
शनम् । आरनालोदकैः पिष्टं प्रातः
पिष्टकभक्षणम् ॥ १८८ ॥

भाजनके लिये मूँगको कांजीके जलमे पीसकर
उसके बडे वनाकर प्रातःकाल भक्षण करे इससे
मलका वेग रुक जाता है ॥ १८८ ॥

केशराजोऽर्जुनक्षारं प्रातः पीतञ्च म-
स्तुना । निहन्ति सामसत्यर्थमचि-
राद्ग्रहणीरुजम् ॥ १८९ ॥

कुकुरभांगरा और अर्जुनके खारको प्रातःकाल
दही के तोड़के साथ पान करनेसे आमयुक्त बहुत
दिनोकी पुरानी संग्रहणी नष्ट होती है ॥ १८९ ॥

कपित्थमथिलीद्वैव सव्यांषं क्षौद्रश-
र्करम् । कट्फलं मधुसंयुक्तं मुच्यते
जठरामयात ॥ १९० ॥

कैथको शहदमे मिलाकर चाटनेसे अथवा त्रिकु-
टके चूर्णको शहद और मिश्रीके साथ सेवन करनेसे
किम्वा कायफलके चूर्णको शहदमें मिलाकर चाट-
नेसे उदररोग नष्ट होता है ॥ १९० ॥

अष्टपलकवृत ।

त्र्यूषणत्रिफलाकलेके बिल्वमात्रे गुडा-
त्पले । सर्पिपोऽष्टपलं पक्ता मात्रां
मन्दानलः पिबेत् ॥ १९१ ॥

त्रिकुटा, त्रिफला और बेलगिरी इन प्रत्येकका
करक १-१ पल तथा गुड एक पल और बी ८ पल
मिलाकर घृतको सिद्ध करे । इस घृतको पान करनेसे
मन्दाग्नि नष्ट होती है ॥ १९१ ॥

बिल्वादि घृत ।

बिल्वाग्निचव्यार्द्रकशृङ्गवैरैः काथेन
कल्केन च सिद्धमाज्यम् । सछागदुग्धं
ग्रहणीगदोत्थे शोथाग्निसादाऽरुचि-
नुद्वारिष्ठम् ॥ १९२ ॥

बेलगिरी, चीता, चव्य, अदरख और सोठ इनके
कल्क तथा काथ और बकरीके दूधके द्वारा घृतको
पकाकर सेवन करनेसे संग्रहणीरोगमे उत्पन्न हुई
सूजन, अग्निही मन्दता और अरुचि दूर होती है १९२

बृहन्मसूरादि घृत ।

मसूरस्य तुलाकाथे घृतप्रस्थं विपा-
चयेत् । पिप्पली पिप्पलीमूलं चव्य-
चित्रकनागरम् ॥ १९३ ॥ तत्सिद्धं
द्विगुणे क्षीरे ग्रहणीघ्नं त्रिदोषनुत् ।
दुर्नामानिलविष्टम्भं जयेच्चैव प्रवाहि-
काम् । बलवर्णकरं हृद्यमग्निसन्दीपनं
परम् ॥ १९४ ॥

मसूरके (१०० पल) काथमे एक प्रस्थ
बी, पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता और सोठ
इनका कल्क और दूना बकरीका दूध मिलाकर घृत-
को सिद्ध करे । यह घृत संग्रहणीरोगको हरनेवाला,
त्रिदोषनाशक, बवासीर, वातविष्टम्भ और प्रवाहिका
रोगको नष्ट करता है । बल और वर्णको बढानेवाला,
हृद्यको हितकारी और अग्निको दीपन करनेवाला
है ॥ १९३ ॥ १९४ ॥

कपित्थाष्टक ।

यवान्नी पिप्पलीमूलं चतुर्जातकना-
गरैः । मरिचाग्निजलाजाजीधान्यसौ
वर्चलैः समैः ॥ १९५ ॥ वृक्षाम्लधा-
तकीकृष्णाबिल्वदाडिमदीप्यकैः ।
त्रिगुणैः षड्गुणसितैः कपित्थाष्टगुणैः
कृतः ॥ १९६ ॥ चूर्णेऽतिसारग्रहणीक्ष-
यगुल्मगुदामयान् । श्वासं कासाऽरु-
चीं हिक्कां कपित्थाष्टमिदं जयेत् १९७ ॥

अजवायन, पीपलामूल, दालचीनी, तेजपात,
नागकेसर, इलायची, सोंठ, कार्लीमिरच, चीता,
सुगन्धवाला, जीरा, धनियाँ और कालानमक, ये
सब एक २ भाग, त्रिगाविल, वायके फूल, पीपल,
बेलगिरी अनार और अजवायन ये प्रत्येक तीन २
भाग, मिश्री ६ भाग और कैथ ८ भाग इन सबको
एकत्र चूर्ण करके सेवन करे तो अतीसार, संग्रहणी,
क्षय, गुल्म, गुदाके रोग, श्वास, खाँसी, अरुचि
और हिक्का रोग दूर होते हैं ॥ १९५॥१९६॥१९७ ॥

मधूकपुष्पासव ।

मधूकपुष्पस्वरसं शृतमन्दक्षयीकृत-
म् । क्षौद्रपादयुतं शीतं पूर्ववत्सन्नि-
धापयेत् ॥ १९८ ॥ तं पीत्वा ग्रहणी-
दोषाञ्जयेत्सर्वाहिताशनः ॥ १९९ ॥

महुएके फूलोंके स्वरसको मन्द २ अंग्रिसे पकावे फिर
उसमें चौथा भाग शहद मिलाकर जीतल करके
विविधपूर्वक आसवको सिद्ध करे । इसको पान करनेसे
सर्वप्रकारकी संग्रहणी और सबप्रकारके अतीसार नष्ट
होते हैं । इसपर पथ्य भोजन करे ॥१९८॥१९९॥

कल्याणगुड ।

प्रस्थत्रयेणामलकीरसस्य शुद्धस्य
दत्त्वार्धतुलां गुडस्य । चूर्णीकृतैर्प्रान्थि-
कजीरचव्यव्योषिभकृष्णाहबुषाजमोदैः
॥ २०० ॥ विडङ्गसिन्धुत्रिफलायवा-
नीपाठाग्निधान्यैश्च पलप्रमाणैः ।

दत्त्वा त्रिवृच्चूर्णपलानि चाष्टा-
वष्टौ च तैलस्य पचेद्यथावत् ॥ २०१ ॥
तं भक्षयेदक्षफलप्रमाणं यथेष्टचेष्टस्त्रि-
सुगन्धियुक्तम् । अनेन सर्वे ग्रहणी-
विकाराः सश्वासकासस्वरभेदशो-
थाः ॥ २०२ ॥ शाम्यन्ति चायं
चिरमन्तरग्रेः हतस्य पुंस्त्वस्य च
वृद्धिहेतुः । स्त्रीणाञ्च वन्ध्यामयनाश-
नं स्यात्कल्याणको नाम गुडः प्रसि-
द्धः ॥ २०३ ॥

तैले त्रिवृन्मनाग्भ्रष्टस्त्रिसुगन्धि पलं
पलम् । सुसिद्धे निक्षिपेदत्र गुडे
कल्याणपूर्वके ॥

अडतालीस पल आमलके रसमे पचास पल शुद्ध
गुड डालकर पीपलामूल, जीरा, चव्य, त्रिकुटा, गजपीपल
हाऊवेर, अजमोद, वायविडंग, सैधानमक, त्रिफला,
अजवायन, पाढ और धनियाँ इन प्रत्येकका चूर्ण चार
चार तोले निसोतका चूर्ण बत्तीस तोले तिलका तेल
बत्तीस तोले सबको यथाविधि मिलाकर गुडको सिद्ध
करे । सिद्ध होजानेके पश्चात् त्रिसुगन्धिका चूर्ण एक
२ पल डालकर प्रतिदिन इसमेंसे एक २ तोला प्रमाण
भक्षण करे । इससे सब प्रकारके संग्रहणी रोग, श्वास,
खाँसी, स्वरभेद और सूजन दूर होती है तथा बहुत
दिनोंकी मन्दाग्नि दीपन होती है, पुरुषत्व बढता है
और स्त्रियोंका वन्ध्यापन नष्ट होता है । इस कल्याण
गुडमें निसोतके चूर्णको तेलमें भूनकर और “त्रिसुग-
न्धि अर्थात् इलायची, दालचीनी और तेजपात इन
प्रत्येकका चूर्ण चार २ तोले मिलाना चाहिये” ॥
॥२०० ॥ २०१ ॥ २०२ ॥ २०३ ॥

महाकल्याणगुड ।

पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रको ह-
स्तिपिप्पली । धान्यकश्च विडङ्गानि
यवान्नी मरिचानि च ॥ २०४ ॥ त्रि-
फला चाजमोदा च नीलनी जीर-
कं तथा । सौवर्चलं सैन्धवश्च सामु-
द्रं रुचकं विडम् ॥ २०५ ॥ आरग्व-
धश्च त्वक्पत्रं सूक्ष्मैला चोपकुञ्चिका ।

नागेन्द्रयवाश्चैव षड्विंशत्येककार्षिकम् ॥ २०६ ॥ मृद्धीकायाः प्रधानाया दद्यात्पलचतुष्टयम् । त्रिवृतायाः पलान्यष्टौ गुडस्यार्धं तुलां तथा ॥ २०७ ॥ तिलतैलं पलान्यष्टौ चामलक्या रसस्य तु । प्रस्थत्रयमिदं सर्वं शनैर्मृद्धिना पचेत् ॥ २०८ ॥ औदुम्बरं चामलकं बादरं वा यथाफलम् । तावन्मात्रं प्रयुञ्जीत भिषग्दृष्ट्वा यथाबलम् ॥ २०९ ॥ सर्वाश्च ग्रहणीरोगान्प्रमेहांश्चैकविंशतिम् । उरोघातं प्रतिश्यायं दौर्बल्यं वह्निसंक्षथम् ॥ २१० ॥ ज्वरानपि हरेत्सर्वान्कुर्यात्कान्तिं मतिं स्वरम् । पिचुषाठान्वयाद्दन्ति रक्तपित्तञ्च विडग्रहम् ॥ २११ ॥ धातुक्षीणो वयःक्षीणः क्षीणः स्त्रीभिः क्षयी तथा । तेभ्यो हितश्च सर्वेभ्यो वन्ध्यानाश्चैव पुत्रदम् ॥ २१२ ॥ रूपोदायर्थं स्वरौदायर्थं मेधामावहति स्थिराम् । महाकल्याणकं नाम रसायनमनुत्तमम् ॥ २१३ ॥

पीपल, पीपलामूल, चीता, गजपीपल, धनियॉ, वायविडंग, अजत्रायन, कालीमिरच, त्रिफला, अजमोद, नील, जीरा, सैवानमक, समुद्रनमक, कालानमक, सामर, विड नमक, अमलतास, ढालचीनी, तेजपान, छोटी इलायची, कालाजीरा, सोठ और इन्द्रजौ इन प्रत्येकको दो दो तोले, काली दाख १६ तोले, निसोत ३२ तोले, उत्तम गुड २०० तोले, तिलका तेल ३२ तोले और आमलोका स्वरस ४८ पल इन सबको एकत्र मिलाकर मन्द मन्द अग्निसे पकावे । वैद्य रोगीका बलाबल विचार कर इसमेसे गूलर, आमला अथवा वरकी बराबर मात्रा भक्षण करनेको देवे । इससे—सर्व प्रकारके सग्रहणी रोग, २१ प्रकारके प्रमेह, उरोघात, प्रतिश्याय, दुर्बलता, अग्निहीनता और सर्व प्रकारके ज्वर नष्ट होते हैं । तथा काति, बुद्धि और स्वरकी वृद्धि होती है । यदि इसमे नीम और पाढका चूर्ण डाला जाय तो यह

रक्तपित्त और मलरोगको हरता है । जो मनुष्य धातु क्षीण है, जो अवस्थांम क्षीण हांगये है और जो स्त्रियोंके अत्यन्त प्रसंग करंनस क्षीण हांगये है उन सबके लिये यह हितकारी है और वन्ध्यास्त्रियोंको पुत्रका देनेवाला है तथा रुज, स्वर और मेधाको स्थिर करंनवाला है । यह महाकल्याण नामक गुड उत्तम रसायन है ॥ २०४—२१३ ॥

द्वितीयकल्याणगुड ।

विडङ्गपिप्पलीमूलत्रिफलाधान्यचित्रकान् । मरिचैन्द्रजवाजाजीपिप्पलीहस्तिपिप्पलीः ॥ २१४ ॥ लवणान्यजमोदाश्च चूर्णितं कार्षिकं पृथक् । तिलतैलत्रिवृच्चूर्णभागो चाष्टपलोन्मितौ ॥ २१५ ॥ धात्रीफलरसप्रस्थान्गुडानर्धतुलांस्तथा । पक्त्वा मृद्धिना खादेद्ददरोदुम्बरोन्मितम् ॥ २१६ ॥ गुरोर्भुक्तं न चात्र स्याद्विहारहारयन्त्रिणाम् ॥ मन्दाग्निं त्वं ज्वरं मूर्च्छां मूत्रकृच्छ्रमरोचकम् ॥ २१७ ॥ श्वयथुं गात्रशूलञ्च कासं श्वासं भ्रमक्षयम् । कुष्ठार्शः कामलामेहांन गुल्मोदरभगन्दरान् ॥ २१८ ॥ ग्रह्णीः पाण्डुरोगांश्च हन्ति सर्वामयांस्त्वयम् । कल्याणको गुडः ख्यातः सर्वर्तुषु च योजितः ॥ २१९ ॥

वायविडंग, पीपलामूल, त्रिफला, धनियॉ, चीता, कालीमिरच, इन्द्रजौ, जीरा, पीपल, गजपीपल, पांचो नमक और अजमोद ये प्रत्येक एक एक कर्प, तिलका तेल ३२ तोले, निसोतका चूर्ण ३२ तोले, आमलोका स्वरस ६४ तोले और गुड ५९ पल लेवे । सबको मिलाकर यथाविधिसे मन्द २ अग्निसे पकावे । इसमेसे प्रतिदिन वरकी बराबर अथवा गूलरकी बराबर भक्षण करे । इसपर भारी पदार्थोंका भोजन नहीं करे और मिथ्याहार विहारोंको छोड़ देवे । यह कल्याणगुड—मन्दाग्नि, ज्वर, मूर्च्छा, मूत्रकृच्छ्र, अरुचि सृजन, गात्रशूल, खांसी, श्वास, भ्रम, क्षय, कौह, ववासीर कामला, प्रमेह, गुल्म, उदर

भगन्दर, संग्रहणी, पाण्डुरोग और सब प्रकारके रोगोंको हरता है । यह कल्याणगुड सर्व ऋतुओमें प्रयोग करना चाहिए ॥ २१४—२१९ ॥

तृतीय कल्याणगुड ।

चित्रकामृतचर्गीरिचव्यग्रन्थिकनागरम् । बिल्वश्च धातकी पाठा द्विवेरं सपुनर्नवा ॥ २२० ॥ कुटजत्वक्फलं लोथं पृथक्पञ्चपलांशकम् । जले चतुर्गुणे सिद्धं यावत्पादावशेषितम् ॥ २२१ ॥ आर्द्रकस्वरसं मुस्तं प्रसन्नं चाम्लकाञ्जिकम् । तुलार्थश्च पृथग्दद्याद्गुडस्यार्धतुलां पचेत् ॥ २२२ ॥ तन्तुमत्सदृशं तोये प्रक्षिप्तं न विसर्पति । त्र्यूषणं त्रिफला मुस्तयवानीजीरकद्वयम् ॥ २२३ ॥ चूर्णमष्टपलैरेतैः सिद्धं शीते प्रदापयेत् । मात्रामग्निबलं ज्ञात्वा उपयुञ्जीत बुद्धिमान् ॥ २२४ ॥ मन्दाग्न्युपहताः केचिद्ये च वातकफामयैः । हतास्तेभ्यो हितं चेदं बद्धिवृद्धिकरं परम् ॥ २२५ ॥ ग्रहणीदोषशूलघ्नं शोथपाण्ड्वामयापहमाश्वासकासज्वराशोघ्नं क्षीहगुल्मोदरापहम् ॥ २२६ ॥ दीर्घकालोत्थितश्चैव हन्ति रोगगणन्तिवदम् । दृष्टं वारसहस्रेण किं पुनश्चाचिरोत्थितम् ॥ २२७ ॥ “ गुडं कल्याणकं नाम वृष्यं पौष्ट्यं बलप्रदम् ।”

चीता, गिलोय, चागेरी (अम्ल नोनिया), चव्य, पीपलामूल, सोठ, वेलगिरी, धायके फूल, पाठ, सुगन्धवाला, पुनर्नवा, कुडेकी छाल, इन्द्रजाँ और लोथ प्रत्येक पाच २ पल लेकर चाँगुने जलमें पकावे जब चौथाई भाग शेष रह जाय तब उतारकर छान लेवे, फिर उसमें अदरखका रस नागरमोथा और म्वच्छ उत्तम काँजी प्रत्येक पचास २ पल और गुड पचास पल मिलाकर यथाविधिमें पकावे जब तंतुके समान उसमें तारसे निकलने लगे और जलमें

डालनेसे फैले नहीं तब शीतल होनेपर त्रिकुटा त्रिफला, नागरमोथा, अजवायन, जीरा और काला जीरा इनका आठ २ पल चूर्ण मिला देवे । अत्रिका बलावल विचारकर मात्रा निरूपण करे । जो मनुष्य मंदाग्निसे पीडित है और जो वातकफसे ग्रसित है उनके लिये यह अत्यन्त हितकारी है । एवं अत्रिको दीपन करनेवाला और ग्रहणी दोष, संग्रहणीरोग, शूल, मूजन, पाण्डुरोग, श्वास, खाँसी, ज्वर, ववासीर, प्रीणा, गुल्म, अदररोग और बहुत कालसे उत्पन्न हुए पुराने रोगोंको नष्ट करता है ऐसा हजारों बार देखा गया है । नवीन रोगोंको तो कहना ही क्या है । यह कल्याणगुड वीर्यजनक, पुष्टिकारक और बलकारक है ॥ २२०—२२७ ॥

चतुर्थ कल्याणगुड ।

मस्त्वारनालचर्गीरीशृङ्गवेरसं तथा । तुलार्थं तु पृथग्दद्यादामलक्याः शतार्द्धकम् ॥ २२८ ॥ तिलतेलपलान्यष्टौ गुडस्यार्धतुलां पचेत् । तन्तुमत्सदृशं तोये प्रक्षिप्तं न विसर्पति ॥ २२९ ॥ वत्सकातिविषा कुष्ठं धातकी च रसाञ्जनम् । सव्योषं पिप्पलीमूलं दारुचव्यं सचित्रकम् ॥ २३० ॥ सक्षारलवणं चूर्णं दद्यादर्धपलांशकम् । मात्रामग्निबलापेक्षी चोपयुञ्जीत बुद्धिमान् ॥ २३१ ॥ दुर्नामश्वासकासघ्नो ग्रहणीदोषमेहनुत् । गुल्मोदावर्त्तहृद्रोगशोफपाण्ड्वामयापहः ॥ २३२ ॥ कफवातामदोषघ्नः पाचनो बद्धिदीपनः । गुडः कल्याणको नाम्ना वृष्यः पुष्टिबलप्रदः ॥ २३३ ॥

दहीका तोड़, काँजी, चागेरीका म्वरस और अदरखका रस ये प्रत्येक पचास २ पल, आमलेका रस १५० पल, तिलका तेल ८ पल, गुड ५० पल, इन सबको मिलाकर यथाविधिसे पकावे । जब पकते २ गाढा होजाय और जलमें डालनेमें नहीं फैले तो कुडेकी छाल, अतीर, कूठ, वायके फूल, रमौत, त्रिकुटा, पीपलामूल, देवगरु, चीता, जवाग्यार और पाच

नमकये प्रत्येक दो गो तोला लेकर चूर्ण करके मिला देवे । अग्निका बलाबल विचारकर मात्राको निरूपण करे तो यह—वावासीर, श्रास, खॉसी, सग्रहणी, प्रमेह, गुल्म, उदावर्त, हृदयरोग, मूजन, पाण्डुरोग, कफ, वात और आमदोषनाशक है यह कल्याणगुड—पाचन, अग्निप्रदीपक, वृष्य, पुष्टि और बलकारक है ॥ २२८-२३३ ॥

कूष्माण्डकल्याणगुड ।

कूष्माण्डकानां पक्वानां स्वन्नानां निष्कलत्वचाम् । सर्पिप्रस्थे पलशतं ताम्रपात्रे शनैः पचेत् ॥ २३४ ॥ पिप्पलीपिप्पलीमूलं चित्रको हस्तिपिप्पली । धान्यकानि विडङ्गानि नागरं मरिचानि च ॥ २३५ ॥ त्रिफला चाजमोदा च कालिङ्गाजाजिसैन्धवम् । एकैकस्य पलञ्चैकं त्रिवृदष्टपलं तथा ॥ २३६ ॥ तैलस्य च पलान्यष्टौ गुडात् पञ्चाशदेव तु । प्रस्थौस्त्रिभिः समेतन्तु रसेनामलकस्य च ॥ २३७ ॥ तावत्पाकं प्रकुर्वीत मृदुना वह्निना भिषक् । यावद्वीरलेपः स्यात्तदेवमवतारयेत् ॥ २३८ ॥ औदुम्बरं चामलकं बादरं वा प्रमाणतः । यथाबलं तु कायस्य भक्षयेत्तु गुडं नरः ॥ २३९ ॥ अनेनैव विधानेन प्रयुक्तश्च दिने दिने । प्रसह्य ग्रहणीदोषान्कुष्ठानशांभगन्दरान् ॥ २४० ॥ ज्वरमानाहहृद्रोगगुल्मोदरविपूचिकाः । कामलापाण्डुरोगांश्च प्रमेहांश्चैकविंशतीन् ॥ २४१ ॥ वातशोणितवीसर्पराजयक्ष्महलीमकान् । कफपित्तानिलान्सर्वान्प्ररूढांश्चापि नाशयेत् ॥ २४२ ॥ व्याधिक्षीणा वयःक्षीणाः स्त्रीषु क्षीणाश्च ये नराः तेषां हितश्च बल्यश्च वयःस्थापन एव च । गुडः कल्याणको नाम्ना बन्ध्यायाः पुत्रदः परः ॥ २४३ ॥

प्रथम एक पका हुआ पठा लेकर उसे छीलकर उवाल लेवे फिर उसके टुकड़े कर १०० पल प्रमाण लेवे और धी १६ पल लेवे । फिर पीपल, पीपलामूल, चीता, गजपीपल, धनियाँ, वायविडङ्ग, सोठ, कालीमिरच, त्रिफला, अजमोद, कुडैकी छाल, जीरा और सैधानमक प्रत्येक चार २ तोलें, निसोत ३२ तोले, तिलका तेल ३२ तोले, गुड ५० पल और आमलोका रस ३ प्रस्थ ६० तोलको लेकर सबको मिला तावके धासनमें करके धीरे २ मन्द् २ अग्निमें पकावे जब पकते २ गाढा होकर करछीमे लगनेलगे तब उतार लेंगे इसमेंसे शरीरका बलाबल विचारकर—गूलर, आमले अथवा धेरकी बराबर भक्षण करें । इस प्रकार प्रतिदिन सवन करें तो यह कूष्माण्डकल्याणगुड—सग्रहणी, कोढ, वावासीर, भगन्दर, ज्वर, आनाह, हृदयरोग, गुल्म, उदररोग, विपूचिका, कामला, पाण्डुरोग, इकास प्रकारके प्रमेह, वातरक्त, विसर्प, राजयक्ष्मा, हलीमक, कफ, पित्त और वातके समस्त रोगोको नष्ट करता है । जो मनुष्य रोगोसे क्षीण होगये है और जो अधिक स्त्रीप्रसंग करनेसे क्षीण होगये है, उनके लिये यह हितकारक, बलकारक और अवस्थास्थापक है । एव बन्ध्या स्त्रियोंको पुत्रका देनेवाला है ॥ २३४-२४३ ॥

बहुशालिगुड ।

त्रिवृत्तिका निकुम्भा च श्वदंष्ट्रा चित्रकं शटी । विशाला मुस्तकं शुण्ठी कृमिशत्रुर्हरीतकी ॥ २४४ ॥ द्विपलांशाः पलान्यष्टौ भल्लातकफलानि च । सूरणं द्वादश प्रोक्तं षट्पलं वृद्धदारुकम् ॥ २४५ ॥ एतानि खण्डशः कृत्वा द्विद्रोणेऽपां विपाचयेत् । पादशेषन्तु कुर्वीत पचेद्गुडतुलां भिषक् ॥ २४६ ॥ कन्दस्तिकस्त्रिवृद्धिर्मुस्तैलामरिचत्वचम् । नागकेसरचूर्णश्च ह्येकैकं द्विपलोन्मितम् ॥ २४७ ॥ एतानि सूक्ष्मचूर्णानि गुडमध्ये विनिःक्षिपेत् । भक्षयेद्भूटिकां प्राज्ञः कर्षांशां

१ तावेक कलड किये हुए वर्तनमें बनाना चाहिये नहीं तो आमलोकी रसामे कथिलापन आजायगा

पथ्यभुङ्गनरः ॥ २४८ ॥ वातपित्तकफ-
प्रायां द्विदोषां सान्निपातिकाम् । ग्र-
हणीं नाशयत्याशु चक्रपाणिर्यथाऽसु-
रान् ॥ २४९ ॥ कामलाकुष्ठमेहार्शः-
पाण्डुरोगभगन्दरान् । श्वयथूदरगु-
ल्मांश्च जयेत्सम्यक्प्रयोजितः ॥ २५० ॥
“सर्वास्त्रुतुपु कर्तव्यो गुडोऽयं बहु-
शालिकः ॥”

निसोत, कुटकी, दन्ती, गोखरू, चीता, कचूर,
इन्द्रायन, नागरमोथा, साठ, वायविडंग और हरड ये
प्रत्येक आठ आठ तोले, भिलावे बत्तीस तोले, जिमी-
कन्द १२ पल और विधारा २४ तोल लेवे । इन
सबको कूटकर दो ट्रेण जलमें पकावे । जब चौथाई
भाग जल शेष रहजाय तब उतार कर छान लेवे ।
फिर उसमें १०० पल गुड डालकर पकावे, पकते
समय उसमें विदारिकन्द, चिरायत, निसोत, चीता,
नागरमोथा, इलायची, कालीभिरच, दालचीनी और
नागकेशर इन प्रत्येकका चूर्ण दो २ पल मिलाकर
एक २ तोलेकी गोलियाँ बना लेवे प्रतिदिन एक गोली
खाय और पथ्य भोजन करे तो यह वात पित्त
और कफकी संग्रहणी, इन्द्रज संग्रहणी और त्रिदो-
षकी संग्रहणीको इस प्रकार नष्ट करदेता जिस प्रकार
विष्णु देव्योका नाश करते हैं । तथा कामला, कोढ़,
प्रमेह, बवासीर, पाण्डुरोग, भगन्दर, सूजन, उदर-
रोग और गुल्मरोगको भी दूर करता है । इस
बाहुगुडको सर्वकालमें सेवन करना चाहिये
॥ २४४—२५० ॥

सारकल्प ।

आलिप्य तापीकरवीरकाभ्यां वैश्वान-
नरे प्रज्वलिते निधाय । तप्तं सुतप्तं
विनियोज्य तत्रे निर्वाप्य वारान्बहु-
शः सुलोहम् ॥ २५१ ॥ एभिः प्रकारैः
सुमृताश्च लोहाशूर्णीकृताश्चापि पलानि
चाष्टौ । सर्पिष्पलं तैलपले पलानि
चत्वारि चादाय वरारसस्य ॥ २५२ ॥
तक्रस्य चाम्लस्य चतुष्पलानि कर्षश्च
कर्षं पृथगौषधानाम् । व्योषाजमोदा
चविकानलानां मूलं प्रदद्याद्दशपिष्प-

लीनाम् ॥ २५३ ॥ सिन्धुप्रभृतं सवि-
डङ्गचूर्णं तत्रेण हन्याद्ग्रहणीं सम-
स्ताम् । अर्शांसि शोथं परिणामसंज्ञं
शूलश्च दीप्तिं प्रकरोति बह्वैः ॥ २५४ ॥

सोनामाखी और मैनाशिलको जलमें पीसकर
लोहेके पत्रोपर लेप करे उनको खूब प्रज्वलित अग्निमें
रखकर तपावे पश्चात् उनको तक्रमे बुझावे, इस
प्रकार बारंबार तपाकर अनेकवार तक्रमे बुझावे । इस
प्रकार भस्म किया हुआ लोहा आठ पल लेकर चूर्ण
कर ले । फिर उसमें घी ४ तोले, तेल ४ तोले, त्रिफ-
लेका रस ४ पल, खट्टा तक्र ४ पल, एवं पीपल १०
तथा त्रिकुटा, अजमोद, चञ्च, चीता, पीपलामूल
सैधानोन और वायविडंग इनका चूर्ण दो २ तोला
मिलावे । यह सारकल्प-तक्रमे लिया जाये । सर्व
प्रकारकी संग्रहणी, बवासीर, सूजन और परिणाम-
शूलको नष्ट करता है एवं अभिको दीपन करता
है ॥ २५१—२५४ ॥

अपराजितावलेह ।

पलार्द्धमरुणायाम्स्तु द्विपले कुटज-
त्वचः । केशराजस्य मूलानि कर्षं तत्स-
र्वमेकतः ॥ २५५ ॥ संकुट्य सलिल-
प्रस्थे पक्त्वा पादस्थिते रसे । दत्त्वा
सतपलं तस्मिञ्छागक्षीरं चतुष्पलम् २५६
शोष्यं पक्करसं भूयः पचेद्दार्वीप्रलेप-
नम् । विश्वातिविषयोश्चूर्णं मुस्तस्ये-
न्द्रयवस्य च ॥ २५७ ॥ प्रत्येकमक्ष-
मात्रन्तु क्षिप्वायदक्षमात्रकम् । तद-
शित्वातुभुञ्जीत काञ्जिकाम्लप्रसा-
धितान् ॥ २५८ ॥ मत्स्याङ्गोपुच्छसं-
जांस्तु छागक्षीरं ततः पिबेत् । ग्रह-
ण्यतीसारहरो लेहोऽयमपराजितः २५९

अतीस २ तोले, कुडकी छाल ८ तोले
और भांगरेकी जड २ तोले लेवे सबको एकत्र कूट
कर ६४ तोले जलमें पकावे जब चौथाई भाग जल
शेष रहजाय तब उतार कर छान लेवे फिर उसमें सात
पल बकरीका दूध मिलाकर पकावे, जब पकते २
चारपल दूध सूख जाय और गाढा होकर करछीसे
लगने लगे तब सोठ, अतीस, नागरमोथा और इन्द्रजौ

प्रत्येकका चूर्ण एक एक तोला मिला देवे । प्रतिदिन इससेसे एक तोला प्रमाण रक्षण करे और खट्टी कांजीमे सिद्ध की हुई गोपुच्छनामक मछली भोजन करे अथवा चकरीका दूध पीवे, तो यह अपराजिता-वलेह—संग्रहणी और अतोसारको नष्ट करता है ॥ २५५—२५९ ॥

इति वङ्गसेने भाषाटीकायां ग्रहण्यधिकारः सप्तमः ॥

अथ अर्शरोग ।

अर्शरोगकी संख्यापूर्वक संप्राप्ति ।
पृथग्दोषः समस्तैश्च शोणितात्सह-
जानि च । अर्शासि षट्प्रकाराणि
विद्याद् गुदवलित्रये ॥ १ ॥

वातज १ पित्तज २ कफज ३ त्रिदोषज ४ रक्तज ५
और सहज ६ ऐसे छः प्रकारकी ववासीर मनुष्योंकी
गुदाकी तीन वलियोंमे उत्पन्न होती है ॥ १ ॥

दोषास्त्वद्ध्मांसमेदांसि संदूप्य विवि-
धाकृतीन् । मांसांकुरानपानादौ
कुर्वन्त्यर्शासि ताञ्जगुः ॥ २ ॥

दुष्ट हुए वातादिदोष, त्वचा, मांस और मेदको
दूषित करके गुदामे अनेक प्रकारके आकारवाले
मांसके अकुरो (मस्से) को उत्पन्न करते हैं उनको
अर्श अर्थात् ववासीर कहते हैं ॥ २ ॥

वातज ववासीरके कारण ।

कषायकटुतिक्तानि रूक्षशीतलघूनि
च । प्रमितालपाशनं तीक्ष्णमद्यमैथु-
नसेवनम् ॥ ३ ॥ लङ्घनं देशकालौ च
शीतौ व्यायामकर्म च । शोको
वातातपस्पर्शो हेतुर्वातार्शसामतः ४

कपेले, चरपरे, कढवे, रूखे, शीतल और हलके
पदार्थोंको अधिकतर सेवन करनेसे, बहुत थोड़ा
भोजन करनेसे अथवा (भोजनके समय भोजन नहीं
करनेसे और कुसमय भोजन करनेसे) तीक्ष्ण पदा-
र्थोंका सेवन करनेसे, मदिरा पीनेसे, अत्यन्त खीससर्ग
करनेसे, लघन (उपवास) करनेसे, शीतदेशमे रहनेसे
और शीत कालके कारण अधिक व्यायाम करनेसे

अत्यन्त शोक करनेसे, अधिकतर वायु और धूपमे
फिरनेसे वातकी ववासीर कृपित होती है अर्थात्
वातकी ववासीर होनेके ये कारण हैं ॥ ३ ॥ ४ ॥

पित्तज ववासीरके कारण ।

कट्वम्ललवणोष्णानि व्यायामा-
ग्न्यातपप्रभाः । देशकालावशिगिर्गो
क्रोधो मद्यमस्त्यनम् ॥ ५ ॥ विद्राहि
तीक्ष्णमुष्णञ्च सर्वपानान्नभेषजम् ।
पित्तोल्बणानां विज्ञेयः प्रकोपे हेतु-
र्शसाम् ॥ ६ ॥

चरपरे, खट्टे, नमकीन और गरम ठंसे पदार्थोंको
अधिक सेवन करने, अधिक व्यायाम (वंडकसरत)
के करनेसे, अग्निको सेवन करनेसे अथवा धूपमे
रहनेसे, उष्णदेशमे निवास करनेसे, ग्रीष्म
ऋतुके कारण, क्रोध करनेसे, मद्यपान करनेसे, पराई
सम्पत्तिको देखकर डाह करनेसे, दाहकारक, तीक्ष्ण
एवं उष्ण अन्न पान और औषधियोंको भक्षण करनेसे
पित्तकी ववासीर कृपित होती है । अर्थात् पित्तकी
ववासीर होनेके ये सब कारण हैं ॥ ५ ॥ ६ ॥

कफज ववासीरके कारण ।

मधुरस्निग्धशीतानि लवणाम्लगुरूणि
च । अव्यायामदिवास्वप्नशय्या-
सनसुखे रतिः ॥ ७ ॥ प्राग्वातसेवा-
शीतौ च देशकालावचिन्तनम् ।
श्लेष्मिकानां समुद्दिष्टमेतत्कारणम-
र्शसाम् ॥ ८ ॥

मधुर, चिकने, शीतल, नमकीन, खट्टे और भारी
ऐसे पदार्थोंका भोजन करना, परिश्रम नहीं करना,
दिनमे सोना, सुखपूर्वक सेज अथवा आसनपर गद्दी
तकिये लगाये अधिक बैठे रहना, पूर्वकी वायु
(पुरवाई हवा) को सेवन करना, शीतलदेशमे निवास
करना, शीत ऋतुका होना और किसी प्रकारका
विचार न करना अर्थात् आलस्यमें पड़े रहना ये सब
कफकी ववासीरके कारण हैं । अर्थात् इन कारणोंसे
कफकी ववासीर होती है ॥ ७ ॥ ८ ॥

द्वन्द्वज ववासीरके कारण ।

हेतुलक्षणसंसर्गाद्विद्याद्वन्द्वोल्बणानि
च ।

उपरोक्त मिश्रित कारणोंसे द्वन्द्वज ववासीर कुपित होती है उसमें दो दोषोंके लक्षण मिलते हैं ।

त्रिदोषजववासीरके कारण ।

सर्वो हेतुस्त्रिदोषाणां सहजैर्लक्षणैः
समम् ॥ ९ ॥

उपरोक्त तीनों दोषोंके कारणोंसे त्रिदोषज ववासीर कुपित होती है और उसमें तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं । सहज ववासीरके लक्षण भी इसी प्रकार जानने ॥ ९ ॥

ववासीरके पूर्वलक्षण ।

विष्टम्भोऽन्नस्य दोषल्यं कुक्षेराटोप
एव च । काश्यमुद्गाग्वाहुल्यं सक्थि-
सादोऽल्पविट्कता ॥ १० ॥ ग्रहणीदो-
षपांङ्गान्तराशङ्का चोदरस्य च । पूर्व-
रूपाणि निर्दिष्टान्यर्शसामाभिवृद्धये ११ ॥

अन्नका विष्टम्भ होना अर्थात् अन्नको अच्छे प्रकारसे न पचनेके कारण पेटमें मलका रुकना, शरीरमें दुर्बलता, कोखमें गुडगुडाहट, कृगता, डकारोंका अधिक आना, जांघोंमें वेदना, मलका थोडा उतरना, सप्रहणी, पांडुरोग और उदररोगकी आजंका होना ये सब लक्षण ववासीरके उत्पन्न होनेसे पूर्वमें होते हैं ॥ १० ॥

॥ ११ ॥ -

वातजववासीरके लक्षण ।

गुदाङ्कुराश्चात्यनिलाः शुष्काश्चिभि-
न्विमान्विताः । म्लानाः श्यावारुणाः
स्तब्धा विषदाः परुषाः खराः ॥ १२ ॥
मिथो विसदृशा वक्रास्तीक्ष्णा वि-
स्फुटिताननाः । विम्बीकर्कन्धुखर्जू-
रकार्पासीफलसन्निभाः ॥ १३ ॥
केचित्कदम्बपुष्पाभाः केचित्सिद्धार्थ-
कौपमाः । शिरः पार्श्वीसकटशूख-
ङ्क्षणाभ्यधिकव्यथाः ॥ १४ ॥ क्षवथूद्गा-
रविष्टम्भहृद्ग्रहाऽरोचकप्रदाः । श्वा-
सकासाग्निवैषम्यकर्णनादभ्रमावहाः ॥
॥ १५ ॥ तैरात्तो ग्रथितं स्तोकं
सशब्दं सप्रवाहिकम् । रुक्फेनपिच्छा-

तुगतं विबद्धमुपवेश्यते ॥ १६ ॥ कृष्ण-
त्वङ्मखविण्मूत्रनेत्रवक्रक्ष्व जायते ।
गुल्मप्लीहोदराष्टीलासम्भवस्तत एव
च ॥ १७ ॥

वातकी ववासीरमें गुदाके अङ्कुरमुखे, चिमचिम पीडावाले, मुद्गताये हुए, काले, लाल, जड, विशद, कर्कश, खरखरे, आपसमें सत्र एकसे न हो, तिरछे, तीक्ष्ण, कटेमुरावाले, कन्दूरी, वेग, खजूर और कपासके फलके समान हो, कोई कदमकी फूलकी समान, कोई सरसोंके दानकी समान हो, शिर, पसली, कन्धे, कमर, जघा और वंक्षण इन स्थानोंमें अधिक पीडा हो, छीक, डकार और मलका अवरोध हो, दृढ्यमें पीडा, अनाचि, श्वास, रोंसी, अग्निकी विपमता, कानोंमें शब्द, भ्रान्ति और उस रोगीके गांठदार थोडा शब्द-युक्त प्रवाहिकाके लक्षणोंवाला, पीडायुक्त, ज्ञानोदार बहुत चिकना और विबन्धसहित ऐसा मल उतरे तथा उसका त्वचा, नख, विष्टा, मूत्र, नेत्र और मुख सब काले हो एवं प्लीहा, उदररोग, अष्टीला, इत्यादि विकार उत्पन्न होते हैं ॥ १२—१७ ॥

वातजववासीरकी चिकित्सा ।

तत्र वातशयेषु स्नेहस्वेदवमनविरेच-
नालुस्थापनानुवासनमत्तिसिद्धामिति
वातजे स्नेहस्वेदादीति ।

वातज ववासीरमें प्रथम वैद्य स्नेह, स्वेद, वमन, विरेचन, अनुस्थापन और अनुवासन वस्ति प्रयोग करे ।

लवणादिकार ।

लवणान्यर्कपत्राणि विनीय तरुणानि
च । तैलेनाम्लेन युक्तानि युक्त्या क्षारं
दहेद्विषक् ॥ १८ ॥ उष्णोदकेन मधै-
र्वा रसैरम्लैस्तु लाभतः । पीतः प्रश-
मयत्येषक्षारोऽशो वातसम्भवम् ॥ १९ ॥

पाचो नमक और आकके पके हुए पत्ते लेकर तेल और खटाईमें मिलाकर किसी वर्तनमें धर सन्धि लेपकर अग्निमें युक्तिसे उनको जलाकर खार निकाले पश्चात् उस खारको गरम जल, मदिरा अथवा काजोके साथ पान करे तो वातज ववासीर नष्ट होती है ॥ १८ ॥ १९ ॥

पित्तजववासीरके लक्षण ।

पित्तोत्तरानीलमुखा रक्तपीतासितप्र-
भाः । तन्वसृक्स्त्राविणो विस्त्रास्तन-
वो मृदवस्तथा ॥ २० ॥ शुकजिह्वा-
यकृत्वंडजलौकावक्रसन्निभाः । दा-
हपाकज्वरस्वेदतृणमूर्च्छाऽरतिमोहदाः
॥ २१ ॥ सोष्माणो द्रवनीलोष्णपी-
तरक्तामवर्चसः । यवमध्याहरिपी-
तहारिद्रत्वङ्गनादयः ॥ २२ ॥

पित्तकी ववासीरमे गुदाके अकुर (मम्से) नीले
मुखवाले, लाल, पीले, काले उनमेसे थोडा २ रुधिर
स्रवे, रुधिरकेसी गध आवे, छोटे कोमल तथा तोतेके
जभिकी समान, कलेजेके दुकडेके समान और जौ-
कके मुखकी समान हो और जौकी समान बीचमेसे
मोटें हो, दाह, पाक, ज्वर, पसीनेका अधिकतर
निकलना, तृषा, मूर्च्छा, वेचैनी, मोह (बेहोसी)
और सन्तापयुक्त हो, तथा मल पतला, नीला, गरम,
पीला, लाल और आमसहित उतरे, त्वचा और
नखादिक हरे, पीले एव हल्दीकी समान रगवाले हो
॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥

पित्तजववासीरकी चिकित्सा ।

पित्तजेषु विरेचनमिति । बालकं
शृङ्गवेरञ्च पाययेत्तडुलाम्बुना । मधु-
युक्तं प्रशमयेदर्शः पित्तसमुद्भवम् ॥ २३ ॥

पित्तकी ववासीरमे प्रथम विरेचन करावे फिर
सुगन्धवाला और सोठ इनको चावलोके जलमे पीस
कर शहद मिलाकर पान करे तो पित्तकी ववासीर
नष्ट होती है ॥ २३ ॥

कफजववासीरके लक्षण ।

श्लेष्मोत्वणा महाभूला वना मन्दरु-
जः सिताः । उत्सन्नोपचिताः स्निग्धाः
स्तब्धवृत्तगुरुस्थिराः ॥ २४ ॥ पिच्छि-
लाः स्तिमिताः श्लक्षणाः कण्ठघ्रातयाः
स्पर्शनप्रियाः । करीरपनसास्थ्याभा-
स्तथा गोस्तनसन्निभाः ॥ २५ ॥ वदक्ष-
णानाहिनः पायुवस्तिनाभिविकर्षि-
णः । सकासश्वासहृष्टासप्रसेकारुचि-

पीनसाः ॥ २६ ॥ मेहकृच्छशिरोजाड्य-
शिशिरज्वरकारिणः । क्लृप्याग्निमा-
र्दवच्छिर्दिरामप्रायविकारदाः ॥ २७ ॥
वसामांसकफप्राज्यपुरीषाः सप्रवा-
हिकाः । न स्रवन्ति न भिद्यन्ते पाण्डु-
स्निग्धत्वगादयः ॥ २८ ॥

कफकी ववासीरमे गुदाके अकुर (मम्से) महा-
मूल (बड़ी जडवाले), वन, मन्दपीडावाल, सफद,
ऊंचे, मोटे, विकने, जड, गोल, भारी, कठिन,
पिच्छिल, कफसे भंजे हुए, जलक्षण (स्वच्छ),
अधिक खुजलीयुक्त और स्पर्श करनेमे प्रिय तथा
करोर और कटहरके गुठलीके समान एवं गौके थनकी
समान हो, वंक्षण स्थानमे अफारा हो. गुदा, वस्ती
और नाभिमे पीडा हो तथा खाँसी, श्वास, उवकाई,
मुखसे पानीका निकलना, अरुचि, पीनस, प्रमेह,
मूत्रकृच्छ, गिरमे जडता, शीत ज्वरका होना नपुंस-
कता, अग्निकी मन्दता, वमनका होना, और आमके
विकारोका होना, एव वसा (चर्बी) मांस और कफ-
युक्त मलका उतरना, प्रवाहिकाका होना, न उसमेसे
स्राव हो और न वह टूटे और उसके त्वचादि पाण्डु
वर्ण (ज्वेत, पीत मिश्रित) और विकने हो ॥ २४
॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥

कफजववासीरकी चिकित्सा ।

कफजे शृङ्गवेरस्य काथो नित्योपयो-
गिकः ।

कफकी ववासीरमे सोठका काथ सदैव उपयोग
करने योग्य है ॥

त्रिदोषज और सहज ववासीरके लक्षण ।

सर्वैः सर्वात्मकान्याहुर्लक्षणैः सहजा-
नि च ॥ २९ ॥

जिसमें तीनों दोषोके लक्षण मिलते हो उसको
सन्निपातकी ववासीर जानना और सहजके लक्षण
भी इसी प्रकार जानना ॥ २९ ॥

सहजववासीरकी चिकित्सा ।

यथास्वौषधसंयुक्तं पाययेत्सहजेषु च ।

सहज (म्वाभाविक, बंगसे उत्पन्न हुई) ववासीर
की यथादोषानुसार चिकित्सा करे ॥

सर्वप्रकारकी बवासीरकी
चिकित्सा ।

सर्वाण्यर्शासि मतिमान् पूर्वमालेप-
नादिभिः । स्वेदरक्तादसेकैश्च जयेच्च
हितभोजनैः ॥ ३० ॥

बुद्धिमान् वैद्य सर्वप्रकारकी बवासीरको प्रथम
प्रलेपादि स्वेद, मोक्षण और हितकारक भोजनोसे
जोते ॥ ३० ॥

त्रयो विकाराः प्रायेण ये परस्परहे-
तवः । अर्शासि चानिसारश्च ग्रहणी
गुद् एव च ॥ ३१ ॥

अर्श (बवासीर), अनिसार और संग्रहणी ये
तीनों रोग प्रायः परस्पर अन्योन्याश्रयदोषयुक्त हैं
ये तीनों गुदासे ही होते हैं ॥ ३१ ॥

एषामग्निबले हीने वृद्धिर्वृद्धे परिक्ष-
यः । तस्मादग्निं सदा रक्षेदेषु त्रिषु
विशेषतः ॥ ३२ ॥

इन तीनों रोगोंमें जब अग्नि निर्बल अर्थात् मन्द्र
हो जाती है तब ये वृद्धिको प्राप्त होते हैं और जब
अग्नि बलवान् अर्थात् दीपन होती है तब ये नष्ट होजा
ते हैं, इसकारण इन तीनों रोगोंमें विशेष करके अग्नि
की रक्षा करनी चाहिये ॥ ३२ ॥

यद्वायोरनुलोम्याय यदग्निबलवृद्धये ।
अन्नपानौषधं सर्वं तत्सेव्यं नित्यमा-
र्शसैः ॥ ३३ ॥

जो वायुको अनुलोमन करनेवाले है और जो
अग्निके बलको बढ़ानेवाले है उन सब अन्नपान और
औषधियोंको अग्निके बलको बढ़ानेके लिये नित्य
बवासीरमें सेवन करे ॥ ३३ ॥

यदतो विपरीतं स्यान्निदाने यत्प्रद-
र्शितम् । गुद्जाऽविपरीतेन न तत्का-
र्यं कदाचन ॥ ३४ ॥

जो अन्नपानादि इसमें विपरीत है तथा निदानमें
जो अर्शरोग उत्पन्न होनेके कारण कहे है उन सबको
कदापि सेवन न करे ॥ ३४ ॥

शालिषष्टिकगोधूमयवान्नं
घृतैः । अजाक्षरिण वा-

लानां रसेन वा ॥ ३५ ॥ मांसैर्मांस-
रसैर्वापि कन्दवात्तकामूलकैः । जीव-
त्युपोदकाशाकैस्तण्डुलीयकवास्तुकैः
॥ ३६ ॥ अन्यैश्च सृष्टविण्मूत्रमरुद्धि-
र्वह्निदीपनैः ॥ ३७ ॥ वातातिसार-
वद्विन्नवर्चास्यर्शास्युपाचरेत् । उदा-
वर्त्तविधानेन गाढविट्कानि वाऽऽस-
कृत ॥ ३८ ॥ प्रवृत्तबहुलाऽस्त्रार्णि
पित्तशोणितनाशनैः । योगैरुपाचरे-
त्तनु विड्वन्धे बन्धनाशनैः ॥ ३९ ॥

शालिधान, साठीधान, गेहूँ और जौ इनको घृतमें
सिद्ध करके, अथवा वकरोके दूधमें सिद्ध करके सेवन
करे किम्वा नीमके रस अथवा पटोलके रसके साथ
सेवन करे । मातरस (सोरुआ), जिमिकंद, वैगुन,
मूली, जीवन्ति, पोईका शाक, चौलाईका शाक,
वथुणका शाक, तथा अन्यान्य मल, मूत्र और वायुको
अनुलोमन करनेवाले । एव अग्निको दीपन करनेवाले
पदार्थ बवासीरमें सेवन करे । बवासीरमें जो दस्त होते
हो तो वातातीमारके समान चिकित्सा करे । जो
मल गाढा हो तो उदावर्तकी समान चिकित्सा करे ।
जो बवासीरमें अधिक रुधिर गिरता हो तो रक्तपित्त
के समान आचरण करे । और जो मलकी बद्धता
हो तो विवन्धनात्रक चिकित्सा करे ॥ ३५-३९ ॥

कृष्णसर्पादिधूप ।

कृष्णसर्पवराहोष्ट्रजम्बूकवृषदंशकाः ।
वसामभ्यञ्जनं दद्याद्घूपनं वार्शसां-
हितम् ॥ ४० ॥

काला साँप, सुअर, ऊट, गोटड और बिल्ली इनकी
चर्वाकी गुदापर मालिस करना अथवा धूप देना
बवासीरको अत्यन्त हितकारी है ॥ ४० ॥

दुर्नाम्नां साधनोपायश्चतुर्धा परिकी-
र्तितः । भेषजक्षारशस्त्राग्निसाध्यत्वा-
द्वाप्य उच्यते ॥ ४१ ॥

नीरकी चिकित्सा चार प्रकारसे होती है ।
उपधि, क्षार, शस्त्र और अग्नि इनके
उपयोगसे बवासीरको वाप्य कहते हैं ॥ ४१ ॥

नृकेशादिधूप ।

नृकेशं सर्पनिर्मोकं वृषदंशस्य चर्म
च । अर्कमूलं शमीपत्रमर्शासां धूपनं
परम् ॥ ४२ ॥

गनुयके वाल, सापकी कंचली, धिलावना चर्म,
आरुकी जड और छोकरके पत्ते इनकी धूप ववासीर
रोगियोंको अत्यन्त हितकारी है ॥ ४२ ॥

निशादिलेप ।

निशाकोशातकीचूर्ण विशुद्धं सेन्ध-
वान्वितम् । गोभूत्रेण समायुक्तं
लेपो दुर्नामनाशनः ॥ ४३ ॥

हल्दी और तोरई इनको सुखाकर चूर्ण करके,
फिर उसमें सैधेनमकका चूर्ण मिलाकर गोभूत्रके
साथ लेप करनेसे ववासीर नष्ट होती है ॥ ४३ ॥

सिद्धयोग ।

कृष्णानिशा शङ्खसुवर्चिका च कर-
जबीजं सडलश्च सिन्धुः । गुञ्जाफलं
केशरमध्यबीजं समूलकन्तुत्थक्रेहम-
वाक्यम् ॥ ४४ ॥ दक्षस्य वर्चः कन-
कं यवानी कोशातकीबीजरसश्च तु-
ल्यः । स्नुह्यर्कदुग्धेन च भावयित्वा
पश्चात्प्रभाव्यं सुरभीरसेन ॥ ४५ ॥
छित्वा विघृष्ट्याथ विघृष्ट्य योज्यं ले-
पं विद्ध्याद्दुग्धजक्षयाय । ग्रन्थ्यर्बुदं
पूयवहाश्च नाडीं सगण्डमालामपर्चीं
प्रहन्ति ॥ ४६ ॥

“शस्त्रादिभिर्ये च जिताः प्रलेपात्ते-
ऽपि प्रणश्यन्त्याधिमांसदोषाः ।”

पीपल, हल्दी, शख, सजी, करजुण्के बीज और
पत्ते, सैधानमक, घुघुची, नागकेशर, उसके मध्यके
बीज आर उसकी जड, तूतिया, सत्यानाशी कटेरीकी
जड, मुरगेकी विष्टा, कनक(धतूरा), अजवायन और
तोरईके बीजोका रस इन सबको समान भाग लेकर
शूहर और आकके दूधमें भावना करके पश्चात् गौके
दूधमें भावना देवे । इस प्रकार बारवार खरल करे

और भावना देवे । इसका लेप करनेमें ववासीर,
ग्रन्थि, ज्वर, नाडीप्रण, गण्डमाला, जपरी
इत्यादि अविनास दोषमें उत्पन्न हुए विकार नष्ट होते
हैं ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥

त्र्यूपणाद्यचूर्ण ।

शुद्धशयशुद्धालार्भ मन्दाग्निं पाययेत्तु
तम् । त्र्यूपणं पिप्पलांमूलं पाठा द्विगु
सचित्रकम् ॥ ४७ ॥ नीवर्चलं पृक्क-
राख्यमजाजी विल्वपेणिकम् ।
विडं यवानीं हवृषां विडङ्गं मन्थ्यं
वचाम् ॥ ४८ ॥ निन्तिडीकश्च मण्ड-
न मद्येनोष्णोदकेन च । तथाशांभ्रह-
णीदोपाच्छूलानाहाद्य मुच्यते ॥ ४९ ॥

ववासीर रोगमें मन्दाग्निवाले पुरुषके जो गुदान
मूलन और शूल हो तो त्रिकुटा, पीपलामूल, पाठ,
हींग, चीता, कालानमक, पोहकरमूल, जीरा, वेल्-
गिगी, विडनमक, अजवायन, हाऊंवर, वाचविटंग,
सैधानमक, वच और डमली इन सबका एकत्र चूर्ण
करके माडके साथ या मदिराके साथ अथवा गरम
जलके साथ सेवन करनेसे ववासीर, ग्रहणीदोष
(अग्निकी मन्दता), शूल और आनातरोग नष्ट
होता है ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥

पूतिकादियोग ।

पूतिकाभया मुस्तं भूनिम्वाऽसित-
वत्सकाः । सृणाग्निकासिन्धूत्थं देव-
दाली च चूर्णिताः ॥ ५० ॥ तत्रेण
पिवतश्चात्रं तत्रेणैव समश्नतः । मासा-
त्पक्कफलानीव पतन्त्यशरैर्यसं-
शयम् ॥ ५१ ॥

दुर्गन्धकरज, हरड, मागरमोथा, चिरायता, काले
कुडेकी छाल, जिमीकन्द, चीता, सैधानमक और
देवदाली (वडाल) इन सबका एकत्र चूर्ण करके
तत्रके साथ पान करे और उसके ऊपर तत्रके साथ
भोजन करे । इसप्रकार करनेसे एक महीनेमें पके
फलक समान गुदाके अंकुर (मस्स) गिर जाते हैं
॥ ५० ॥ ५१ ॥

विडंगसारादिकाथ ।

विडङ्गसारामलकञ्च पिष्टं भल्लातक-
काथमधुप्रगाढम् । अर्शांसि जन्तुंश्च
जयत्यर्जाणांश्च सन्धुक्षयति क्ष-
णेन ॥ ५२ ॥

विडंगसार और आमलोंको पीसकर भिलावोंके
काथमें डालकर गह्वके साथ सेवन कर तो ववासीर
कृमि और अजीर्णदोष नष्ट होता है तथा अग्नि दीपन
होती है ॥ ५२ ॥

कठिनं यः पुरीषन्तु कृच्छ्रान्मुञ्चति
मानयः । सवृतं लवणैर्युक्तं नरोऽपान-
जहं पिबेत् ॥ ५३ ॥

जो अर्शरोगवाले मनुष्यके अत्यन्त कष्टसे कठिन
मल उतरे तो सैधेनमकमें घृत मिलाकर पान
करे ॥ ५३ ॥

सकृद्दधिरसोपेतो दधिसर्पिसमायु-
तः । त्वक्पत्रैलाविडव्योषजीरकद्रव्य-
मिश्रितः । विड्विबन्धामशूलघ्नो रुचि-
नो गुदजे हितः ॥ ५४ ॥

सत्तु और दहीके साथ, अथवा दही और घीके
साथ दालचीनी, तजपान, इलायची, विरियाविड
नमक, त्रिकुटा, जीरा और काला जीरा इनका चूर्ण
मिलाकर सेवन कर तो मलरोध और आमशूल नष्ट
होता है । यह रुचिकारक और ववासीरमें हित-
कारी है ॥ ५४ ॥

विड्विबन्धे हितं तक्रं यवानीविडसं-
युतम् ॥ ५५ ॥

मलविबन्धरोगमें अजवायन और विरियाविड-
नमकका चूर्ण तक्रके साथ सेवन करना अत्यन्त हित-
कारी है ॥ ५५ ॥

सेन्धवं नागरं पाठा दाडिमस्य रसं
गुडम् । सतक्रलवणं दद्याद्वातवर्चोऽनु-
लोमनम् ॥ ५६ ॥

सैधेनमक, सोठ, पाठ, अनारका रस और गुड
इनको तक्रमें मिलाकर सेवन करनेसे अथवा केवल
सैधेनमकका चूर्ण तक्रमें मिलाकर पान करनेसे वायु
और मल यथासामग्रीमें स्थित होते हैं ॥ ५६ ॥

गुडाद्य चूर्ण ।

गुडं भल्लातकं गुण्ठी विडङ्गं वृद्धदारु-
कम् । त्रिगुणं दीपनं वृष्यमर्शसो वि-
ड्विबन्धनुत् ॥ ५७ ॥

भिलावे, सोठ, वायविडग और विधारा ये सब
समान भाग और सबसे त्रिगुना गुड लेवे, इनकी
गोली बनाकर सेवन करे । यह चूर्ण अग्निको दीपन
करता है, भैशुनशक्तिको बढ़ाता है, ववासीर और
विबन्धको नष्ट करता है ॥ ५७ ॥

न च रोहन्ति गुदजाः पुनस्तक्रसमा-
हताः । तक्राभ्यासोऽर्शासां कार्यो ब-
लवर्णाग्निवृद्धये । स्रोतःसु तक्रशुद्धेषु
रसः सम्यगुपैति यः ॥ ५८ ॥ तेन पु-
ष्टिर्बलं वर्णः प्रहर्षश्चोपजायते । वात-
श्लेष्मविकाराणां शतञ्च विनिवर्त-
येत् ॥ ५९ ॥

तक्रको सेवन करनेसे नष्ट हुए गुदाके अंकुर(मस्से)
फिर उत्पन्न नहीं होते इसकारण ववासीररोगमें तक्रका
अभ्यास करना चाहिये, तक्रके अभ्याससे पुष्टि बल
वर्ण और अग्निकी वृद्धि होती है। तक्रको सेवन करनेसे
शरीरके स्रोत शुद्ध होकर उनमें अच्छेप्रकारसे रसका
संचार होता है । एव सैकड़ों कफवातके विकारोंका
नाश होता है ॥ ५८ ॥ ५९ ॥

चिरबिल्वाग्निसिन्धून्धनागरेन्द्रयवार-
लून । तक्रेण पिबतोऽर्शांसि निपत-
न्त्यसृजा सह ॥ ६० ॥

करंज, चीता, सैवानमक, सोठ, इन्द्रजो और
ज्योनाक इनका चूर्ण तक्रके साथ पान करनेसे ववा-
सीरके मस्से और रुधिरका गिरना दूर हो जाता
है ॥ ६० ॥

हरिद्रादिप्रलेप ।

हरिद्राजालिनीचूर्णं कटुतेलसमायु-
तम् । एष प्रलेपकः प्रोक्तो ह्यर्शसाम-
न्तकारकः ॥ ६१ ॥

हल्दी और कडवी तोरईके चूर्णको कडवे तेलमें
मिलाकर लेप करनेसे ववासीरके मस्से गिरकर ववा-
सीर नष्ट होजाती है ॥ ६१ ॥

गुदस्वेद ।

स्वेदो गोमयपिण्डेन सकुनामलकेन
च । शतपुष्पेण वा कार्यो गुदजानां
निवृत्तये ॥ ६२ ॥

गोधरका गोला बनाकर स्वेद देनेसे अथवा मत्तू
और आमलोका स्वेद देनेसे क्रिवा सोंयका स्वेद
देनेसे ववासीर दूर हो जाती है ॥ ६२ ॥

घृतभर्जित हरीतकी ।

सगुडां पिप्पलीयुक्तामभयां घृतभर्जि-
ताम् । त्रिवृदन्तीयुतां वापि भक्षये-
दनुलोमिकीम् ॥ ६३ ॥

हरडको घीमे भूनकर उसमें गुड और पीपलका
चूर्ण मिलाकर अथवा निसोतका चूर्ण और दन्तीका
चूर्ण मिलाकर सेवन करे तो वायुका और मलका
अनुलोमन होता है ॥ ६३ ॥

अपामार्गादियोग ।

अम्बुना वाप्यपामार्गमूलं वा तंडुलां-
बुना । तिलारुष्करसंयोगं भक्षयेदग्नि-
वर्धनम् ॥ ६४ ॥ कुष्ठरोगहरं श्रेष्ठमर्श-
सां नाशनं परम् ॥ ६५ ॥

चिरचिटेकी जडके चूर्णको तिल और भिलावेका
चूर्ण मिलाकर जल अथवा चावलोके जलके साथ
भक्षण करे इससे अग्नि बढ़ती है यह कुष्ठरोगनाशक
और अर्ज रोगको जडसे दूर करता है ॥ ६४ ॥ ६५ ॥

तिलादियोग ।

तिलभल्लातकं पथ्या गुडश्चेति समां-
शकम् । दुर्नामथासकासघ्नं प्लीहपांडु-
ज्वरापहम् ॥ ६६ ॥

तिल, भिलावे, हरड और गुड इनको समान भाग
लेकर गोली बनाकर सेवन करे तो ववासीर, ज्वास,
खाँसी, प्लीहा, पांडु और ज्वर नष्ट होता है ॥ ६६ ॥

सूरणपुटपाक ।

मृल्लिप्तं सूरणं कन्दं पकायौ पुटपाक-
वत । दद्यात्सतैललवणं दुर्नामविनि-
वृत्तये ॥ ६७ ॥

जिमीकंदके ऊपर मट्टीका लेप करके पुटपाककी
रीतिसे अग्निमें पकावे पश्चात् उसको तेलमें भूनकर
और नमक मिलाकर ववासीरके दूर करनेके लिये
भक्षण करे ॥ ६७ ॥

कृष्णतिलादिप्रयोग ।

असितानां तिलानां प्राक्प्रकुञ्चं शी-
तवारिणा । खादतोऽर्शासि शाम्य-
न्ति द्विजदाढ्याङ्गपुष्टिदम् ॥ ६८ ॥

चार तोले काले तिलोंका लेकर चूर्ण करके शीतल
जलके साथ प्रातःकाल पीवे तो ववासीर नष्ट होती है
दात दृढ होते हैं और शरीर पुष्ट होता है ॥ ६८ ॥

वार्त्ताकपुटपाक ।

स्विन्नं वार्त्ताकफलं व्योषायाः क्षार-
जेन सलिलेन । तद्घृतभृष्टं युक्तं गुड-
न तृप्तिमायति ॥ ६९ ॥ पिबति च
तक्रं नूनं तस्यान्वेव सुवृद्धगुदजानि ।
नाशं प्रयान्ति पुंसां सहजान्यपि
सप्तरात्रेण ॥ ७० ॥

वैगुनको, त्रिकुटेके क्षार जलेम सीजाकर पश्चात्
उसको घृतमें भूनकर गुडके साथ मिलाकर भक्षण
करे तो तृप्ति होती है इसपर थोडासा तक्र अवश्य
पीना चाहिये । इससे अत्यन्त बढी हुई ववासीर
और सहजववासीर भी सात दिनमें नाशको प्राप्त
होती है ॥ ६९ ॥ ७० ॥

गुडहरीतकी ।

पित्तश्लेष्मप्रशमनी कच्छुकंडूरुजापहा ।
गुदजान्नाशयत्याशु योजिता सगुडा-
भया ॥ ७१ ॥

गुडमें हरडका चूर्ण मिलाकर सेवन करनेसे पित्त
और कफ नष्ट होता है । कच्छु (सूखी खुजली)
और कण्डू (मीठी खुजली) और विशेषकर ववा-
सीर दूर होती है ॥ ७१ ॥

तक्र योग ।

त्वचं चित्रकमूलस्य पिष्ट्वा कुम्भं प्रले-
पयेत् । तक्रं वा दधि वा तत्र जात-
मशोहरं पिबेत् ॥ ७२ ॥

चौतेकी जडकी छालको बारीक पीसकर बड़ेके भीतर लेप करे, पश्चान् उसमें तक्र अथवा दहीको भरदेवे फिर उस तक्रको अथवा दहीको पान करनेसे बवासीर दूर होती है ॥ ७२ ॥

पाठादियोग ।

दुस्पर्शकेन बिल्वेन यवान्या नागरेण च । एकैकेनापि संयुक्ता पाठा हन्त्य-
शसां रुजम् ॥ ७३ ॥

पाठको जवासेके साथ, या बेलगिरीक साथ, अथवा अजवायनके साथ किम्बा सोठके साथ सेवन करनेसे बवासीर नष्ट होती है ॥ ७३ ॥

प्रातःप्रातरदृष्टार्शौ ब्रह्मचारी गुडा-
भयाम् । गोमूत्रद्रोणसंसिद्धां भक्षये-
दनुलोमिकीम् ॥ ७४ ॥

ब्रह्मचर्यको धारण कर प्रातःकाल हरडको एक द्रोण गोमूत्रमें सिद्ध करके गुडमें मिलाकर सेवन करे इसमें वातादिदोष और मल यथामार्गमें स्थित होते हैं ॥ ७४ ॥

कुशमूलं बलायुक्तं पानं तण्डुलधाव-
नम् । रुणद्धि गुदजास्त्रावं प्रदरं वापि
सर्वजम् ॥ ७५ ॥

कुशाकी जड और खिरैदीका पीसकर चावलके जलके साथ पान करनेसे गुदासे रुधिरका गिरना और सर्व प्रकारका प्रदर दूर होता है ॥ ७५ ॥

शोणितस्त्रावविधि ।

शस्त्रैर्वापि जलौकाभिः प्रोच्छूनक-
ठिनार्शसः । शोणितं सञ्चितं दृष्ट्वा
हरेत्प्राजः पुनः पुनः ॥ ७६ ॥

गुदाके अकुर कठिन और मृजनयुक्त हो और उत्तम रुधिर जमगया हो तो शस्त्र अथवा जौकके द्वारा बारवार रुधिरको निकाले ॥ ७६ ॥

रुग्गतं कफवातेन अत्यर्थं गुदकील-
कम् । स्वेदेयद्वा वृषापिंडे रास्त्रया
वाथ शिशुभिः ॥ ७७ ॥

जो कफवातसे गुदाके अकुरोमें अत्यन्त पीडा हो तो अहूसेके पिंड अथवा रास्त्राके पिंडें या सहजनके पिंडसे स्वेद देवे ॥ ७७ ॥

उदकषट्पलघृत ।

नागरं अन्धिकं चव्यं पिप्पली क्षार-
चित्रकम् । एतैश्च पलिकैः सर्वैर्वृतप्र-
स्थं विपाचयेत् ॥ ७८ ॥ उदकस्य
त्रयो भागाः क्षीरस्येकं तदेकतः ।
दुर्नामश्वासकासघ्नं प्लीहापाण्ड्वाम-
यापहम् ॥ ७९ ॥ विषमज्वरशान्त्यर्थं
नृण्णारोचकनाशनम् । एतत्षट्पलकं
नाम बलवर्णाग्निवर्द्धनम् ॥ ८० ॥

सोठ, पांपलामूल, चव्य, पीपल, जवाखार और चीता इनका कल्क चार २ तोले, घी ६४ तोले, जल तीन भाग और दूध एक भाग, सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिसे घृतको सिद्ध करे । यह घृत-बवा-मीर, श्वास, खासी, डीहा, पाण्डुरोग, विषमज्वर, तृपा और अरुचिको, नष्ट करता है । यह पट्पलक घृत-बल, वर्ण और अग्निको दीपन करनेवाला है ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥

पलाशक्षारघृत ।

व्योषगर्भं पलाशस्य त्रिगुणे भस्मवा-
रिणा । साधितं पिबतः सर्पिः पत-
त्यर्शास्यसंशयम् ॥ ८१ ॥

ढाककी भस्मको त्रिगुने जलमें पकाकर काथ करे फिर उस काथ और त्रिकुटेके कल्कके द्वारा घृत को सिद्ध करे । इस घृतको पान करनेसे निःसंवेह बवासीरके मस्से गिरजाते हैं ॥ ८१ ॥

चव्याद्य घृत ।

चव्यं त्रिकटुकं पाठा क्षारं कुस्तंबुस्त-
पि च । यवानीपिप्पलीमूलमुभे च
विडसैन्धवे ॥ ८२ ॥ चित्रकं बिल्व-
मभयां पिष्ट्वा सर्पिर्विपाचयेत् । शकू-
द्रातातुलोम्यार्थं जाते दाधि चतुर्गुणे
॥ ८३ ॥ प्रवाहिकां गुदभ्रंशं मूत्रकू-

च्छं परिश्रवम् । गुद्वङ्क्षणशूलश्च घृत-
मेतद्वचपोहति ॥ ८४ ॥

चव्य, त्रिकुटा, पाढ, जवाखार, धनियो, अज-
वायन, पीपलामूल, सचरनमक, सैवानमक, चीता,
बेलगिरी और हरड इनके कल्क और चाँगुने दहीमें
घृतको सिद्ध करे । यह घृत-प्रवाहिका, गुदभ्रग,
मूत्रकृच्छ, गुदस्त्राव, गुदगूल और वक्षणगूलको नष्ट
करता है ॥ ८२—८४ ॥

द्विविरादि घृत ।

द्विविरमुत्पलं लोथं समङ्गा चित्रचव्य-
कम् । पाठा सातिविषाधिल्वं धातकी
देवदारुच ॥ ८५ ॥ दार्वीत्वङ्नागरं मां-
सी सुस्तं क्षारो यवाभ्रजः । चित्रक-
श्चेति पेप्याणि चाङ्गेरी स्वरसे घृतम्
॥ ८६ ॥ एकत्र साधयेत्सर्वं तत्सर्पिः
परमौषधम् । अशोऽतिसारग्रहणी
पांडुरोगेऽरुचौ तथा ॥ ८७ ॥ मूत्रकृ-
च्छे गुदभ्रंशे वस्त्यानाहप्रवाहके ।
पिच्छाम्नावेऽशसां शूलै योज्यमेतत्रि-
दोषनुत् ॥ ८८ ॥

सुगन्धवाला, कमल, लोथ, मर्जाठ, चीता, चव्य,
पाढ, अतीस, बेलगिरी, धातक फूल, देवदारु, दारु-
हल्दी, दालचीनी, सोठ, बालछड, नागरमोथा,
जवाखार और चीता इनके कल्क और चाँगु-
रीके रसके द्वारा घृतको सिद्ध करे । यह घृत-चवा-
सीर, अतीसार, सग्रहणी, पाण्डुरोग, अरुचि, मूत्र-
कृच्छ, गुदभ्रग, वस्ति, आनाह, प्रवाहिका, पिच्छस्त्राव
और बवामीरके गूलमे अत्यन्त हितकारी है ॥ ८५ ॥
॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥

आग्निघृत ।

पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रको हस्ति-
पिप्पली । हिंशुचव्याजमोदाश्च पञ्चैव
लवणानि च ॥ ८९ ॥ द्वौ क्षारौ ह्यु-
षा चैव दद्यादर्द्धपलोन्मिताम् । दधि-
काञ्जिकशुक्तानि स्नेहमात्रासमानि
च ॥ ९० ॥ आर्द्रकस्वरसप्रस्थं घृतप्र-
स्थं त्रिपाचयेत् । एतदग्निघृतं नाम

मन्दाग्नीनां प्रशस्यते ॥ ९१ ॥ अश-
सां नाशनं श्रेष्ठं तथा गुल्मोदरापह-
म् । ग्रन्थ्यर्बुदापचीकासकफमेदोऽनि-
लानपि ॥ ९२ ॥ नाशयेद्ग्रहणीदोषं
श्वयथुं सभगन्दरम् । ये च वास्तिगता
रोगा ये च कुक्षिसमाश्रिताः ॥ ९३ ॥
सर्वास्तान्नाशयत्याशु सूर्यस्तम
इवोदितः ।

पीपल, पीपलामूल, चीता, गजपीपल, हीग, चव्य,
अजमोदा, पांचो नमक, जवाखार, सजी और हाऊ-
वेर प्रत्येकका कल्क दो दो तोले, दही, कांजी और
शुक्त नामक कांजी प्रत्येक सोलह २ पल, अदरखका
रस सोलह पल और गौका उत्तम घी एक प्रस्थ लेवे,
सबको यथाविधिसे मिलाकर निधिपूर्वक घृतको
सिद्ध करे । यह मन्दाग्निमे अत्यन्त हितकारी है । बवा-
सीरको नष्ट करनेके लिये उत्तम औषधि तथा गुल्म,
उदररोग, ग्रन्थि, अर्बुदरोग, अपची, खांसी, कफ,
मेदरोग, वातरोग, सग्रहणीरोग, सृजन और भगन्दर-
रोगको नष्ट करता है । एव वास्तिगत रोग और कुक्षि-
गत समस्त रोगको यह घृत इसप्रकार दूर करता है
जिसप्रकार सूर्य अधकारको नष्ट करता है ॥ ८९ ॥
९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥

बृहदग्निघृत ।

भल्लातकसहस्रार्धं जलद्रोणे विपाच-
येत् । अष्टभागावशिष्टन्तु कषायमव-
तारयेत् ॥ ९४ ॥ घृतप्रस्थं समावा-
प्य कल्कानीमानि दापयेत् । व्यूष-
णं पिप्पलीमूलं चित्रको हस्तिपिप्प-
ली ॥ ९५ ॥ हिंशुचव्याजमोदाश्च
पञ्चैव लवणानि च । द्वौ क्षारौ ह्युषा
चैव दद्यादर्द्धपलोन्मितान् ॥ ९६ ॥ द-
धिकाञ्जिकशुक्तानि स्नेहमात्रासमानि
च । आर्द्रकस्वरसश्चैव शोभाञ्जनरसं
तथा ॥ ९७ ॥ तत्सर्वमेकतः कृत्वा
शनैर्भृदग्निना पचेत् । एतदग्निघृतं
नाम मन्दाग्नीनां प्रशस्यते ॥ ९८ ॥

अर्शां नाशनं श्रेष्ठं मूढवातानुलो-
मनम् । कफवातोद्भवे गुल्मे प्लीहोदर-
दकोदरे ॥९९॥ शौफं पाण्ड्यामयं कासं
ग्रहणीं श्वासमेव च । एतान्विनाश-
यत्याशु सूर्यस्तम इवोदितः ॥१००॥

उत्तम ५०० भिलावे लेकर एक ट्रोण जलमे
पकावे, जब आठवाँ भागजल शेष रह जाय तब
उतारकर छान लेवे । फिर उस काथमें एक प्रस्थ घी
तथा त्रिकुटा, पीपलामूल, चीता, गजपीपल, हीग,
चव्य, अजमोद, पांचो नमक, जर्वाखार, सजी और
हाऊवेर प्रत्येकका कल्क दो २ तोले, दही, काजी,
गुक्त, अदरकका स्वरस और सहिजनेका रस, प्रत्येक
एक २ प्रस्थ डाले, सबको एकत्र करके यथाविधि
मन्द २ आग्निसे घृतको सिद्ध करे । यह घृत, मन्दा-
ग्निरोगमें अत्यन्त हितकारी, ववासीरको नष्ट करने-
वाला, दुष्ट वायुको अनुलोमन करनेवाला, तथा कफ
वातसे उत्पन्न हुए गुल्म, प्लीहा रोग, उदररोग, जलो-
दर, सूजन, पाडु, खाँसी, संग्रहणी, श्वास इन सब
रोगोंको हरनेवाला है । जिस प्रकार सूर्य अन्धकारको
हरनेवाला है ॥ १९४--१०० ॥

उदावर्तपरीता ये ये चात्यर्थनिरू-
क्षिताः । विलोमवातशूलार्तास्तोष्वि-
ष्टमनुवासनम् ॥ १०१ ॥

ववासीरमें यदि उदावर्त हो और शरीरमें अत्यन्त
रुक्षता हो तथा वायुका अवरोध और शूलसे पीडित
हो तो अनुवासनवस्ति देवे ॥ १०१ ॥

पिप्पली मधुकं बिल्वं शताह्वा मदनं
वचा । कुष्ठं शटी पुष्कराह्वं चित्रकं
देवदारु च ॥ १०२ ॥ पिष्ट्वा तैलं विप-
क्तव्यं द्विगुणक्षीरसंयुतम् । अर्शां
दृढवातानां तच्छ्रेष्ठमनुवासनम् ॥ १०३ ॥

पीपल, सुँलठी, बेलगिरी, शतावर, मैनफल, वच,
कूठ, कचूर, पोहकरमूल, चीता और देवदारु इन
सबको एकत्र कूटकर तेलमें पकावे और उसमें दुगुना
दूध डाले । इसकी अनुवासनवस्ति बनाकर वातसे
पीडित ववासीरवाले मनुष्योंके लिये प्रयोग करे । यह
अत्यन्त हितकारी है ॥ १०२ ॥ १०३ ॥

गुदनिस्सरणं शूलं मूत्रकृच्छ्रं प्रवाहि-
काम् । कट्यूरुपृष्टदौर्बल्यमानाहं व-
द्वक्षणाभयम् ॥ १०४ ॥ पिच्छास्त्राव
गुदे शोथं वातवर्चोविनिग्रहम् ।
उत्थानं बहुशो यच्च जयेत्तच्चानुवा-
सनात् ॥ १०५ ॥

जो गुदा बाहर निकल आवे, शूल हो, मूत्र कठिन-
तासे उतरे, प्रवाहिका हो, कमर, जाँघ और पीठमें
दुर्बलता हो, भफारा हो, वक्ष्णस्थानमें पीडा हो,
झागोंयुक्त, चिकना स्त्राव हो, गुदामें सूजन, विष्टा
और वायुका अवरोध हो यदि ये लक्षण वारंवार
हो तो अनुवासनवस्ति देकर इन सब विकारोंको
जीते ॥ १०४--१०५ ॥

कासीसादि तैल ।

कासीसदन्तीसिन्धूत्थकरवीरानलैः
पचेत् । तैलमर्कपयोमिश्रमभ्यङ्गात्पा-
युकीलनुत् ॥ १०६ ॥

हीराकसीस, दन्ती, सैधानमक, कनेर और
चीता इनके कल्क और आकके दूधसे तेलको पकावे
इस तेलको लगानेसे गुदाके अंकुर नष्ट हो जाते
हैं ॥ १०६ ॥

बृहत्कासीसादि तैल ।

कासीसं सैन्धवं कृष्णा शुण्ठी कुष्ठञ्च
लाङ्गली । शिलाभिदश्वमारञ्च ज-
न्तुघ्नं दन्तिचित्रकम् ॥ १०७ ॥ हरि-
तालं तथा स्वर्णक्षीरी चैतैः पचेत्समैः ।
तैलं स्नुह्यर्कपयसा गवां मूत्रं चतुर्गु-
णम् ॥ १०८ ॥ एतदभ्यङ्गतोऽर्शांसि
क्षारवत्पातयेद्भुवम् । क्षारकर्मकरं
ह्येतन्न च सन्दूषयेद्वलिम् ॥ १०९ ॥

कसीस, सैधानमक, पीपल, सोठ, कूठ, कलि-
हारी, पाषाणभेद, कनेर, वायविडंग, दन्ती, चीता,
हरताल और सत्यानासी कटेरी इन सबको समान
भाग लेवे, तेल एक प्रस्थ, आकका दूध तेलकी बरा-
बर और गोमूत्र तेलसे चौगुना लेवे । सबको मिला
कर यथा विधिसे तेलको सिद्ध करे । इस तेलको
लगानेसे गुदाके अंकुर निश्चय पतित हो जाते हैं

जिस प्रकार क्षारसे गुदाके अंकुर गिर जाते हैं । यह क्षारकर्म करनेसे गुदाकी बलिको दूषित नहीं करता है ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ १०९ ॥

दन्त्यादि तैल ।

दन्त्यश्वमारकासीसविडङ्गैलाग्रिसै-
न्धवैः । सार्कक्षीरैः पचेत्तैलमभ्यङ्गा-
त्पायुकीलनुत ॥ ११० ॥

दन्ती, कनेर, कक्षीस, वायविडंग, इलायची, चीता और सैधानमक इन सब औषधियोंको आकके दूधके साथ सरसोके तैलमें पकावे । इस तैलको मर्दन करनेसे गुदाके अंकुर नष्ट होजाते हैं ॥ ११० ॥

सैन्धवादि चूर्ण ।

लवणोत्तमवह्निकलिङ्गयवान् चिरवि-
ल्वमहापिचुमन्दयुतान् । पिव सतदिनं
मथिताल्ललितान् यदि मर्दितुमि-
च्छसि पायुरुहान् ॥ १११ ॥

सैधानमक, चीता, इन्द्रजौ, करज और वकाय-
नके बीज इन सबका वारीक चूर्ण करके सात दिन
तक तक्रके साथ पान करनेसे गुदाके अंकुर नष्ट
हो जाते हैं ॥ १११ ॥

कटुत्रयादि चूर्ण ।

कटुत्रयं वचा हिङ्गुपाठाक्षारौ विष-
द्वयम् । चव्यतिक्तकलिङ्गानि गजाह्वा
लवणानि च ॥ ११२ ॥ ग्रन्थिविल्वा-
जमोदाश्च गणो द्वाविंशको मतः ॥
॥ ११३ ॥ एतानि समभागानि सूक्ष्म-
चूर्णानि कारयेत् । एरण्डतैलसंयुक्तं
सदा लिह्यात्ततो नरः ॥ ११४ ॥
विडालपदकं वापि पिबेदुष्णेन वारि-
णा । श्वासं हन्यात्तथा शोथमर्शासि
च भगन्दरम् ॥ ११५ ॥ हृच्छूलं पार्श्व-
शूलञ्च सक्थिशूलमरोचकम् । घ्नीहानं
सप्रमेहञ्च कामलां पाण्डुरोगताम्
॥ ११६ ॥ आमवातमुदावर्तमन्त्रवृद्धि-
गुदकृमीन् । हन्याच्च ग्रहणीरोगान्ये
मया परिकीर्त्तिताः ॥ ११७ ॥

त्रिकुटा, वच, हींग, पाठ, जवाखार, सजी, वत्सनाभविप, भृंगीविप, चव्य, कुटकी, इन्द्रजौ, गजपीपल, पांचोत्तमक, पीपलामूल, बेलगिरी और अजमोद इन सब औषधियोंको समान भाग लेकर एकत्र कूट पिस कर वारीक चूर्ण कर ले । इस चूर्णको अंडीके तैलके साथ मिलाकर एक तोला प्रमाण सेवन करे और ऊपरसे गरम जल पीवे । यह चूर्ण-
श्वास, सूजन, ववासीर, भगन्दर, हृदयशूल, पस-
लियोंकी पीडा, सक्रिय शूल, अरुचि, घ्नीहा, प्रमेह,
कामला, पाण्डुरोग, आमवात, उदावर्त, अन्त्रवृद्धि,
गुदाके कृमि और सग्रहणी रोगको नष्ट करता है
॥ ११२-११७ ॥

कल्याण लवण ।

भल्लातकञ्च त्रिफलां दन्तीचित्रकमेव
च । एतानि समभागानि सैन्धवं
द्विगुणं भवेत् ॥ ११८ ॥ कपालपुटसम्पक्कं
मृदुना गोमयाग्निना । एतत्कल्याण-
लवणं श्रेष्ठमर्शोविकारिणाम् ॥ ११९ ॥

भिलावे, त्रिफला, दन्ती और चीता ये सब
समान भाग और सैधानमक इन सबसे दुगुना लेवे ।
पश्चात् इन सबका चूर्ण करके कपालपुटमें रखकर
आरनेउपलोकी मन्द २ अग्निसे पकावे तो कल्याण-
लवण तैयार होता है । यह कल्याणलवण ववासीर
रोगवालेको अत्यन्त हितकारी है ॥ ११८ ॥ ११९ ॥

समशर्कर चूर्ण ।

शुण्ठीकणामरिचनागदलत्वगैलाचू-
र्णिकृतं क्रमविवर्द्धितमूर्द्धमन्त्यात् ।
खादेदिदं समासितं गुदजाग्निमान्द्यगु-
ल्माऽरुचिश्चसनरूणहृद्दामयेषु १२० ॥

सोठ ६ भाग, पीपल ५ भाग, कालीमिरच ४
भाग, नागकेशर ३ भाग, तेजपात २ भाग और
इलायची १ भाग लेवे और सबकी बराबर मिश्री
लेवे । सबका एकत्र वारीक चूर्ण करके सेवन करे
तो ववासीर, मन्दाग्नि, गुल्म, अरुचि, श्वास, कण्ठ
और हृदयरोग नष्ट होता है ॥ १२० ॥

व्योषादि चूर्ण ।

व्योषाग्न्यरूपकरविडङ्गतिलाभयानां ।
चूर्णं गुडेन सहितं सतनं प्रयो-

ज्यम् । दुर्नामशोथगरकुष्ठशकृद्वि-
न्धमग्रेर्जयत्यवलतां कृमिपाण्डुतां
वा ॥ १२१ ॥

त्रिकुटा, चीता, मिलावे, वायविडंग. तिल और
हरड़ इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण कर ले और
सब चूर्णकी बराबर गुडमिलावे। इसको भक्षण करनेसे
बवासीर, सूजन, विषशेप, कोढ़, मलविचन्ध, मंदाग्नि,
कृमि और पांडुरोगादि नष्ट होते हैं ॥ १२१ ॥

फलवर्त्ति तैल ।

तिक्ततुम्ब्युद्भवं तैलं तैलश्चालसिसम्भ-
वम् । आक्षोटकरसञ्चैव रसं निर्गुण्डि-
गोमथैः ॥ १२२ ॥ प्रत्येकैकन्तु सर्वेषां
ग्राह्यं पलचतुष्टयम् । कर्षकं सैन्धवं
दद्यादन्तीमूलं द्विमाषकम् ॥ १२३ ॥
द्विमाषं सर्जिकाक्षारमेतत्तैलं विपाच-
येत् । तिक्ततुम्बीकृतावर्त्तार्यवेन्द्रस्व-
रसेन च । तैलेनाभ्यञ्जनेनैव दद्याद्दु-
र्नामशान्तये ॥ १२४ ॥

कडवी तौवीके वीजोंका तेल, अलसीका तेल,
अखरोटका रस, निर्गुण्डीका रस और गोमूत्र ये
प्रत्येक चार चार पल लवे, सैंधानमक १ तोला, दन्तीकी
जड़ २ माशे और सजी दो माशे लेव सबको
मिलाकर विधिपूर्वक तेलको सिद्ध करे । फिर कडवी
तौवीके इन्द्रजौके रसमें उसकी बत्ती बनाकर उसको
इस तेलमें पीसकर भिजोकर लगानेसे बवासीर
अवश्य नष्ट होजाती है ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ १२४ ॥

विजयचूर्ण ।

त्रिकत्रयं वचा हिङ्गु पाठाक्षारौ
निशाद्वयम् । चव्यतिक्ताकलिङ्गानि
शताह्वा लवणानि च ॥ १२५ ॥ ग्रन्थि-
बिल्वाजमोदा च गणोऽष्टाविंशति-
र्भतः । एतानि समभागानि श्लक्ष्ण-
चूर्णानि कारयेत् ॥ १२६ ॥ ततो
बिडालपदकं पिवेदुष्णेन वारिणा ।
एण्डतैलसंयुक्तं सदा लिह्यात्ततो
नरः ॥ १२७ ॥ श्वासं हन्यात्तथा

शोथमशौंसि च भगन्दरान् ।
हृच्छूलं पार्श्वशूलञ्च वातगुल्मं तथो-
दरम् ॥ १२८ ॥ हिक्काश्वासं प्रमेहां-
श्च कामलां पांडुरोगताम् । आमवात-
मुदावर्त्तमन्त्रवृद्धिगुदकृमीन् ॥ १२९ ॥
अन्ये च ग्रहणीदोषा ये मया परिकी-
र्त्तिताः । महाज्वरोपसृष्टानां भूतोऽप-
हृत्चेतसाम् ॥ १३० ॥ अप्रजानाश्च
नारीणां प्रजावर्द्धनमेव च । विजयो
नाम चूर्णोऽयं महाव्याधिहरः परः १३१

त्रिकुटा, त्रिफला, दालचीनी, इलायची, तेजपात,
वच, हींग, पाठ, जवाखार, सजी, हल्दी, दारुहल्दी,
चव्य, कुटकी, इन्द्रजौ, शतावर, पांचो नमक, पीप-
लामूल, बेलगिरी और अजमोद इन अट्ठाईस औष-
धियोंको समान भाग लेकर वारीक चूर्ण कर ले इस
चूर्णको एक तोला लेकर गरम जल और
अडीके तेलसे चिकना करके सेवन करे । यह विजय
चूर्ण—श्वास, सूजन, बवासीर, भगन्दर, हृदयगूल,
पसलियोंकी पीडा, वात, गुल्म, उदररोग, हिक्का,
श्वास, प्रमेह, कामला, पाण्डुरोग, आमवात, उदावर्त्त,
अन्त्रवृद्धि, गुदाके कृमि और अन्यान्य जो संग्रहणी
आदि रोग मने कहे है उन सबको नष्ट करता है। तथा
महाज्वर और भूतवाधाको दूर करता है। यह विज-
यचूर्ण—ग्रन्थ्यास्त्रियोंको पुत्र देनेवाला और सब
प्रकारकी महाव्याधियोंको नष्ट करनेवाला है ॥ १२५
—१३१ ॥

दन्त्यरिष्ट ।

त्रिफलादशमूलानि निकुम्भानां
पलं पलम् । वारिद्रोणे शृतं पादशेषे
गुडतुलायुतम् ॥ १३२ ॥ आज्यभाण्डे
स्थितं मासं दन्त्यरिष्टो निषे-
वितः । गुदजकृम्युदावर्त्तग्रहणीपांडुरो-
गनुत् ॥ १३३ ॥

त्रिफला, दशमूलकी समस्त औषधि और दन्ती
प्रत्येक चार २ तोले लेकर एक ट्रोण जलमें पकावे
जब जल चौथाई भाग शेष रह जाय तब उसको छान
लेवे पश्चान् उसमें १०० पल गुड डालकर घीके चिकने

वासनमे भरकर एक महीनेतक गाड देवे। फिर निकालकर इस दन्त्यरिष्टको सेवन करे। यह दन्त्यरिष्ट ववासीर, कृमि, उदावर्त, सप्रहणी और पाण्डुरोगको नष्ट करता है ॥ १३२ ॥ १३३ ॥

अरिष्टादेस्तु सन्धानं धातकीलिप्त-
भाजने । पानमानमरिष्टादेः काथपा-
नसमं जगुः ॥ १३४ ॥

अरिष्टादिकको धायके फूलकी मदिरासे लिपे हुए वर्तनमे रखना चाहिये, अरिष्टकी मात्रा काथके समान जाननी ॥ १३४ ॥

चतुस्सममोदक ।

सनागराऽरुष्करवृद्धदारकं गुडेन
यो मोदकमत्युदारकम् । अशेषदुर्ना-
मकरोगदारकं करोति वृद्धि सह-
सैव दारकम् ॥ १३५ ॥

सोठ, भिलावे औ विधारा, ये सब समान भाग लेकर चूर्ण कर लेवे और सबके बराबर गुड मिलाकर मोदक बनावे। यह मोदक सब प्रकारकी ववासीरको हरनेवाले है और बलकी वृद्धि करनेवाले है ॥ १३५ ॥

स्वल्पसूरण मोदक ।

मरिचमहौषधिचित्रकसूरणभागा य-
थोत्तरं द्विगुणाः । सर्वसमो गुड-
भागः सेव्योऽयं मोदकः प्रसिद्धफलः
॥ १३६ ॥ ज्वलयति ज्वलनं जाठर-
मुन्मूलयति शूलगुदगुल्मगदान् । निः-
शेषयति श्लीपदमर्शासि प्रणाशय-
त्याशु ॥ १३७ ॥

कालीमिरच १ भाग, सोठ २ भाग, चीता ३ भाग, जिमीकन्द ४ भाग और सबके बराबर गुड लेवे। इन सबको एकत्र कूटकर मोदक बनावे। यह प्रसिद्ध मोदक अग्निको दीपन करनेवाले, उदर रोगको हरनेवाले, तथा गुदशूल, गुल्मरोग, सब प्रकारके श्लीपदरोग और सब प्रकारकी ववासीरको नष्ट करनेवाले है ॥ १३६ ॥ १३७ ॥

सूरणपिण्डी ।

चूर्णीकृताः षोडशसूरणस्य भागा-
स्ततोऽर्धेन च चित्रकस्य । महौषधा-
ऽर्धो मरिचस्य चैको गुडेन दुर्नाम-
जयाय पिण्डी ॥ १३८ ॥

सूरणपिण्डी, जिमीकन्द १६ भाग, चीता ८ भाग, सोठ ८ भाग, कालीमिरच १ भाग और गुड सबके बराबर लेवे, इन सबको मिलाकर पिण्डी बनावे। यह सूरणपिण्डी सब प्रकारकी ववासीरको दूर करती है ॥ १३८ ॥

बृहत्सूरणमोदक ।

षोडशसूरणभागा वह्नैरष्टौ महौषध-
स्याथ । अर्धेन भागयुक्तिर्मरिचस्य
ततोऽपि चार्धेन ॥ १३९ ॥ त्रिफला-
कणासमूलातालीसाऽरुष्करकृमिघ्ना-
नाम् । भागा महौषधसमा दहनांशा
तालमूली च ॥ १४० ॥ भागः सूरण-
तुल्यो पातव्यो वृद्धदारकस्यापि ।
भृङ्गैले मरिचांशे सर्वाण्येकत्र संचू-
र्ण्य ॥ १४१ ॥ द्विगुणेन गुडेन युतः
सेव्योऽयं मोदकः प्रकामधनैः । गुरु-
वृष्यभोज्यरहितेष्वितरेषूपद्रवं कुर्यात्
॥ १४२ ॥ भस्मकमनेन जनितं
पूर्वमगस्त्यस्य योगराजेन । भीमस्य
भारुतेरपि महाशनौ तेन तौ जातौ
॥ १४३ ॥ अग्निबलमात्रहेतुर्न केवलं
सूरणो महावीर्य्यः । प्रभवति
शस्त्रं क्षाराग्निभिर्विनाप्यशसामेषः ॥
॥ १४४ ॥ श्वयथुश्लीपदगदजिद्व्रह-
णीश्च तथा कफानिलजाम् । नाश-
यति वलीपलितं मेधाङ्कुरुते वृषत्व-
श्च ॥ १४५ ॥ हिककां श्वासं कासं
सराजयक्ष्मप्रमेहांश्च । प्लीहानश्च तथोग्रं
हन्त्याशु रसायनं पुंसाम् ॥ १४६ ॥

जिमीकन्द १६ भाग, चीता ८ भाग, गोठ ४ भाग, कालीमिरच २ भाग, त्रिफला, पीपलामूल, तालीमपत्र, भिलोवे और वायविडंग ये प्रत्येक औषधि सोठके समान लेवे, मुसली चीतेकी बराबर, विधाग जिमीकन्दके समान, दालचीनी और उलायची कालीमिरचके समान लेवे । सबको एकत्र पीसकर चूर्ण कर लेवे और सब चूर्णसे दुगुना गुड मिलाकर मोदक बनावे, काम और धनकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको यह मोदक सेवन करते चाहिये जो मनुष्य इन मोदकोको सेवन करते हैं और उनके ऊपर भारी, वृष्य पेसा भोजन नहीं करते उनके यह मोदक अनेक उपद्रवोको उत्पन्न करते है । इस योग-राजके प्रभावसे पहिले अगस्त्य ऋषिके भस्नाग्नि हो गई थी और इसीके प्रभावसे भीमसेनके भी भस्मानल हो गई थी कि जिससे यह दोनो पुरुष बहुतसा भोजन करने लगे थे । वहाँ केवल सूरण ही इतना वीर्यकारक नहीं है, किन्तु अग्नि और बलका कारण है । यह शस्त्र, क्षार और अग्नि कर्मके बिना ही बवासीरको दूर कर देता है । यह बृहत्सूरणमोदक सूजन, इलीपदरोग, कफवातसे उत्पन्न हुई संग्रहणी, बलीपालित रोग, हिक्का, श्वास खाँसी, राजयदमा, प्रमेह और उग्रप्लीहारोग तथा विशेष करके बवासीरको नष्ट करता है । मेधाको उत्पन्न करता, मैथुन शक्तिको बढाता है और रसायन है ॥ १३९ ॥ १४६ ॥

अगस्त्यमोदक ।

हरीतकीनां त्रिपलं त्रिपलं कटुकत्र-
यम् । त्वक्पत्रं सार्द्धं पलकं गुडस्या-
र्द्धपलं मतम् ॥ १४७ ॥ अगस्त्यमो-
दका ह्येते कल्पितान्पारिभक्षयेत् ।
शोथशौग्रहणीदोषकासोदावर्तना-
शानान् ॥ १४८ ॥

हरड १२ तोले, त्रिकुटा १२ तोले, दालचीनी, तेजपात ६ तोले और गुड २ तोले लेवे । इन सबको एकत्र पीसकर मोदक बनावे । यह अगस्त्य-मोदक—सूजन, बवासीर, संग्रहणीरोग, खाँसी और उदावर्तको नष्ट करता है ॥ १४७ ॥ १४८ ॥

प्राणदागुटिका ।

त्रिपलं शृङ्गवेरस्य चतुष्कं मरिचस्य

च । पिप्पल्याः कुडवार्धश्च चव्यस्य
पलमेव च ॥ १४९ ॥ तालीशपत्रस्य
पलं पलार्द्धं केशरस्य च । द्वे पले पि-
प्पलीमूलादूर्ध्वकर्षश्च पत्रकात ॥ १५० ॥
सूक्ष्मैलाकर्षमेकश्च कर्षश्च त्वङ्मृणा-
लयोः । अजमोदाद्विजाज्योश्च सूक्ष्मा-
प्येकत्र चूर्णयेत् ॥ १५१ ॥ गुडा-
त्पलानि त्रिंशच्च चूर्णमेकत्र कारयेत् ।
अक्षप्रमाणां गुटिका प्राणदेति च सा
स्मृता ॥ १५२ ॥ पूर्वं भक्षेत्तु पश्चाच्च
भोजनस्य यथाबलम् । मद्यं मांसरसं
यूषं क्षीरं तोयं पिबेदनु ॥ १५३ ॥
हन्यादर्शासि सर्वाणि सहजान्यस्त्रजा-
नि च । वातपित्तकफोत्थानि सन्नि-
पातोद्भवानि च ॥ १५४ ॥ पानात्यये
मूत्रकृच्छ्रे वातरोगे गलग्रहे । विषम-
ज्वरपित्ते च पांडुरोगे तथैव च ॥ १५५ ॥
कृभिहृद्रोगिणाश्चैव गुल्मशूलार्तिनां
तथा । छर्द्यतीसाररोगाणां कामला-
हिकिनां हिता ॥ १५६ ॥ शुष्क्याः
स्थानेभ्यः देया विट्गुडे वातपि-
त्तजे । प्राणदेयं सितां दत्त्वा चूर्ण-
मानाच्चतुर्गुणाम् ॥ १५७ ॥ अम्लपि-
त्ताग्निमान्द्यादौ प्रयोज्या गुदजातुरे ।
अनुपानं प्रयोक्तव्यं व्याधौ श्लेष्मभवे
पलम् । पलद्वयं त्वनिलजे पित्तजे तु
पलत्रयम् ॥ १५८ ॥ फलाम्लधान्या-
म्लरसोदकश्च मद्यं मरुद्रोगिणि चालु-
पानम् । इक्षो रसः क्षीरहिमाम्बु-
पित्ते उष्णाम्बुयूषं कफजे विद्ध्यत् ॥
॥ १५९ ॥ गंडूषमात्रया देयं मृदौ क्रूरे
च पञ्च च । अनुपानं प्रयोक्तव्यं देश-
कालमवेक्ष्य च ॥ १६० ॥ यथा जल-
गतं तैलं तत्क्षणादेव सर्पति । तथा
भेषज्यसङ्गेषु प्रसर्पत्यनुपानतः ॥ १६१ ॥

सोठ १२ तोले, कालीमिरच १६ तोले, पीपल ८ तोले, चव्य ४ तोले, तालिग्रपत्र ४ तोले, नागकेशर २ तोले, पीपलामूल ८ तोले, तेजपात ८ मासे छोटी इलायची १ कर्प (१६ मासे), दालचीनी और खस एक २ तोला, जीरा १ तोला, काला जीरा १ तोला और अजमोदा १ तोला इन सबको एकत्र पीसकर वारीक चूर्ण कर लेवे फिर गुड तीस पल लेवे सबको मिलाकर एक २ तोलेकी गोली बना लेवे । इसको प्राणदागुटिका कहते हैं । अपने बलानुसार इसको भोजनके पहिले अथवा पीछे भक्षण करे । इसपर मदिरा, मांसरस (सोरुआ), यूप, दूध अथवा जलका अनुपान करे । यह प्राणदागुटिका—सर्व प्रकारकी ववासीर, सहज ववासीर, रुधिरकी ववासीर, वात, पित्त और कफसे उत्पन्न हुई ववासीर, सन्निपातकी ववासीर, पानात्ययरोग, सूत्रकृच्छरोग, वातरोग, गलग्रह, विपमज्वर, पित्तज्वर, पांडुरोग, कृमिरोग, हृदयरोग, गुल्म, गूल, वमन, अतीसार, कामला और हिक्कारोगमे अत्यन्त हितकारी है । इसको मलरोधक और वातपित्तकी ववासीरमे देना हो तो सोठकी जगह हरड डालनी चाहिए । गुडके स्थानमे चूर्णसे चौगुनी चीनी डालनी चाहिए । इस प्राणदागुटिकाको अम्लपित्त, मन्दाग्नि और गुदाके रोगोमे देना चाहिए । कफके रोगोमे अनुपान ४ तोला पीना चाहिए । और पित्तके रोगोमे १२ तोले अनुपान पीना चाहिए । वातरोगमे फलोंकी कांजी, धानोकी कांजी, रसौदन और मदिराका अनुपान करे । पित्त रोगमे ईखका रस, दूध और शीतलजलका अनुपान करे । कफके रोगोमे उष्णजल और यूपका अनुपान करे । देश और कालको विचार कर मृदु और क्रूर अनुपानकी पंचगण्यूपकी मात्रा देवे । जिसप्रकार तेल जलमे डालदेनेसे तत्काल फैल जाता है उसी प्रकार अनुपानसे औषधि शरीरमे शीघ्र फैल जाती है ॥ १४९—१६१ ॥

काङ्कायण मोदक ।

पथ्यापत्रपलान्येकमजान्यामरिच-
स्य च । पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्य-
चित्रकनागराः ॥ १६२ ॥ पलाभि-
दुद्ध्या क्रमशो यवक्षारपलद्वयम् ।
भल्लातकपलान्यष्टौ कन्दस्तु द्विगुणो
यतः । द्विगुणेन गुडेनेषां वटकानक्ष-

सम्मितान् ॥ १६३ ॥ कृत्वैनं भक्षये-
त्प्रातस्तक्रमम्भोऽनु वा पिवेत् । म-
न्दाग्निं दीपयत्येष ग्रहणीपांडुरोग-
नुत् ॥ १६४ ॥ काङ्कायणेन शिष्ये-
भ्यः शस्त्रक्षाराग्निभिर्विना । भिष-
ग्जितमिदं प्रोक्तं श्रेष्ठमशौविकारि-
णाम् ॥ १६५ ॥

हरड ५ पल, जीरा और काली मिरच १-१ पल पीपल एक पल, पीपलामूल २ पल, चव्य ३ पल, चीता ४ पल, सोठ ५ पल, और जवाखार २ पल, भिलावे ८ पल जिमीकन्द १६ पल और सबसे दुगुना गुड लेवे । सबको एकत्र पीसकर एक २ तोलेकी गोली बना लेवे, प्रतिदिन प्रातःकाल एक गोली खाकर ऊपरसे तक्र अथवा जलका अनुपान करे । यह कांकायणमोदक—मन्दाग्निको दीपन करते है सग्रहणी और पांडुरोगको नष्ट करते है । कांकायण ऋषिने अपने शिष्योंके लिए यह कांकायणमोदक कहे हे । जो ववासीर शस्त्र, क्षार और अग्निके द्वारा आरोग्य नहीं होती उसको यह कांकायण मोदक निश्चय आराम कर देते है ॥ १६२—१६५ ॥

भल्लातक गुड ।

भल्लातकसहस्रे द्वे जलद्रोणे विपाच-
येत् । पादशेषे रसे तस्मिन् पचेद्दु-
डतुलां भिषक् ॥ १६६ ॥ भल्लातक-
सहस्राद्धं छित्वा तत्रैव दापयेत् । सि-
द्धेऽस्मिन्निफलाव्योषयवानीमुस्तसै-
न्धवम् ॥ १६७ ॥ कर्षांशं चूर्णितं
दद्यात्त्वगैलापत्रकेसरम् । खादेदग्निब-
लापेक्षी प्रातरुत्थाय मानवः ॥ १६८ ॥
कुष्ठार्शःकामलामेहान्ग्रहणीं पाण्डु-
तामपि । हन्यात्प्लीहोदरं कासं कृमि-
दोषं भगन्दरम् ॥ १६९ ॥ भल्लातकगुडो
द्वेष श्रेष्ठश्चाशौविकारिणाम् ॥ १७० ॥

ये सहस्र भिलावे लेकर एक द्रोण जलमे पकावे जब चौथाई भाग जल उप रह जाय तब उतार कर छान लेवे । फिर उसमे १०० पल गुड डाले पश्चात् उन सोजे हुए भिलावोमेसे ५०० भिलावोके टुकडे

करके डालकर पकावे । जव पाक पककर तैयार होजाय तव त्रिफला, त्रिकुटा, अजवायन, नागरमोथा, सेंधान-मक, ढालचीनी, इलायची, तेजपात और नागकेशर इन प्रत्येकका चूर्ण एक २ तोला मिला देवे । इससेसे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर अग्निका बलावल विचार भक्षण करे । इससे सब प्रकारके कोढ़, बवासीर, कामला, प्रमेह, संग्रहणी, पाण्डुरोग, प्रीहा, उदररोग, खाँसी, कृमिदोष और भगन्दरोग नष्ट होता है । यह भल्लातकगुड -अर्शरोगवालोको अत्यन्त हितकारी है ॥ १६६—१७० ॥

भल्लातकावलेह ।

सुपर्णभल्लातफलानि चैव द्विधावि-
दाय्याढकसम्मितानि । विपाच्य
तोयेन चतुर्गुणेन चतुर्थशेषे व्यपनीय
तानि ॥ १७१ ॥ पुनः पचेत्क्षीरचतु-
र्गुणेन घृतांशयुक्तेन घनं यथा स्यात् ।
सितोपलाः षोडशभिः पलैश्च विमृ-
श्य संस्थाप्य दिनानि सप्त ॥ १७२ ॥
ततः प्रयुञ्ज्याग्निबलेन मात्रां जये-
द्विकारानखिलान्गुदोत्थितान् । क-
चान्सुनीलान्वनकुञ्चिताग्रान् सुपर्ण-
दृष्टिश्च शशाङ्कान्तिम् ॥ १७३ ॥
जवं हयानां बलमुत्तमश्च स्वरं मयू-
रस्य हुताशदीप्तिम् । स्त्रीबलभत्वं
विविधां प्रभाश्च नीरोगतां द्वित्रिश-
तायुषश्च ॥ १७४ ॥ न चान्नपाने परि-
हारमस्ति न चातपे वाऽध्वनि भैथुने
च । प्रयोगकाले सकलामयानां राजा
ह्ययं सर्वरसायनानाम् ॥ १७५ ॥

अच्छे प्रकारसे पके हुए और दो टुकड़े किये हुए एक आढक प्रमाण मिलावे लेकर चौगुने जलमे पकावे । जव चौथाई भाग जल शेष रह जाय तव उसको उतार कर छान लेवे । फिर उसमे चौगुना दूध और चौथाई भाग घी डालकर पकावे । जव पकते २ गाढा हो जाय तव उसमे १६ पल मिश्री डाल कर करछीसे चलाकर एकम एक करके किसी स्वच्छ पात्रमे भर देवे फिर सात दिनतक उसको रक्खा रहने देवे । पश्चात् अग्निके बलावलको विचार कर मात्राका निरू-

पण करे । यह भल्लातकावलेह-सर्व प्रकारके गुदाके रोगोको नष्ट करता है, वालोको श्यामवर्ण, घने और कुंचित करता है, दृष्टिको गरुडके समान दीप्त और चन्द्रमाके समान शरीरमे कातिको उत्पन्न करता है । अश्वके समान वेग और बलको उत्पन्न करता है । इसके प्रभावसे मोरके समान स्वर होता है । अग्निके समान प्रकाश उत्पन्न होता है । इसको सेवन करने-वाला स्त्रियोको वल्लभ होता है । नानाप्रकारके प्रभावसे युक्त होता है । नीरोग होकर दो तीन सौ वर्षतक जीता है । इसके सेवनमे किसी प्रकारके अन्नपान, धूप, भ्रमण, भैथुन आदिका परहेज नहीं है । इसको सेवन करनेसे—सर्वप्रकारके रोग नष्ट होते हैं । यह भल्लातकावलेह सर्व रसायनोका राजा है ॥ १७१—१७५ ॥

पटोलाद्यवलेह ।

पटोलमूलं त्रिफलां विशालां चतुर-
ङ्गुलम् । नीलिनी त्रिवृता दन्ती कृ-
मिघ्नं सपुनर्नवा ॥ १७६ ॥ कटुकं
सातला लोघ्रं भागान्दशपलोन्मि-
तान् । दत्त्वा द्रोणचतुष्कन्तु सलिलं
पादशेषितम् ॥ १७७ ॥ तैलस्य कु-
डवं तत्र गुडस्य तु तुलां पचेत् । त्रिवृ-
च्चूर्णं पलान्यष्टौ लेहवत्साधु साधयेत्
॥ १७८ ॥ शीतीभूते न्यसेत्तत्र व्योषं
पञ्चपलोन्मितम् । पलत्रयं त्रिजा-
तस्य दत्त्वा सङ्घट्टयेत्पुनः ॥ १७९ ॥
ततो यथाबलं खादेत्पलाद्धं पिचुमे-
व च । नाहारे यन्त्रणा काचित्र वि-
हारे तथैव च ॥ १८० ॥ विबन्धाध्मा-
नगुल्मार्शः पाण्डुरोगकफकृमीन् ।
कुष्ठमेहारुचिं हन्ति ह्यन्त्रवृद्धिषु श-
स्यते ॥ १८१ ॥

पटोलकी जड़, त्रिफला, इन्द्रायण, अडकी जड़, नील, निसोत, दन्ती, वायविडंग, पुनर्नवा, त्रिकुटा, सातला और लोघ प्रत्येकको दश २ पल लेकर चार द्रोण जलमे पकावे, जव एक द्रोण जल शेष रह जाय तव उतारकर छान लेवे । पश्चात् उसमे तिलका तेल एक कुडव (१६ तोले) गुड १००पल और निसोतका

चूर्णटपल डालकर उत्तम विधिसे लेहके समान पकावे जव पककर सिद्ध होजाय तव उतार कर शीतल होने-पर त्रिकुटेका चूर्ण २० तोले और त्रिजातकका चूर्ण ३ पल डालकर खूब करछीसे चलाकर एकमएक कर लेवे। पश्चात् इसमेंसे अपने बलानुसार दो तोले अथवा एक तोला प्रमाण भक्षण करे । इसपर आहार और विहारका कुछ परहेज नहीं है। यह विबन्ध, अफारा, गुल्म, ववासीर, पाण्डुरोग, कफ, कृमि, कोढ, प्रमेह, अरुचि और अंत्रवृद्धिरोगको नष्ट करता है ॥ १७६-१८१ ॥

मोदकं वटकं लेहं कर्षमात्रं प्रयोज-
येत् । कर्षद्वयं पलं वापि देयं रोगा-
ऽग्न्यपेक्षया ॥ १८२ ॥

मोदक, वटक और अवलेह ये प्रत्येक एक २ तोला देने चाहिए किन्तु रोगीकी अग्निका अधिक बल देखे तो दो तोले अथवा चार तोले भी देवे ॥ १८२ ॥

भल्लातकविधान ।

बीजं भल्लातकस्यैकं पूतं निःक्वाथ्य
वारिणि । क्वाथयेत्षोडशगुणे शु-
क्तिशेषं हितं पिबेत् ॥ १८३ ॥ एकै-
कं वर्द्धयेद्बीजमापश्चात्त्रिचक्षणः ।
आसप्ततिं पञ्चवृद्ध्या वर्द्धयेन्मतिमां-
स्ततः ॥ १८४ ॥ शुक्तिवृद्ध्या कषा-
यञ्च वर्द्धयेदातुरः पलान् । स्रकषा-
याणि बीजानि वर्द्धितानि यथाक्रम-
म् ॥ १८५ ॥ पुनः क्रमेण तेनैव ह्वा-
सयेदात्मवान्नरः । इत्युत्कर्षापकर्षा-
भ्यां सहस्रं यावदादरात् ॥ १८६ ॥
उपयुक्तं जयत्येतद्गुदजानि कृमीं-
स्तथा । भल्लातकविधानं तु चेदं गोपु-
ररक्षितम् ॥ १८७ ॥

शुद्ध भिल्लाकेके एक बीजको लेकर सोलह गुने जलेमें आंटावे । जव पकते २ चार तोले जल जेप रह जाय तव छानकर पान करे । फिर प्रतिदिन एक २ बीज बढ़ाता जाय । इस प्रकार पचास तक बढ़ावे, जव पचास हो जाय तव पांच २ बढ़ाने

लगे इस प्रकार ७० तक बढ़ावे और इसी प्रकार काथ भी प्रतिदिलेक क्रमसे चार २ तोले बढ़ाता जाय जिस क्रमसे बीजको बढ़ावे उसी क्रमसे काथको भी बढ़ावे । सत्तरके पश्चात् उसी क्रमसे बढ़ाता जाय। इस बढ़ाने घटानेसे जव हजार बीज होजायेंगे तव गुदाके कृमि और अर्शरोग नष्ट होजावेगे । यह भल्लातकविधान गोपुर ऋषिने कहा है ॥ १८३—१८७ ॥

योगराजगुग्गुलु ।

पिप्पली पिप्पलीमूलं चव्यचित्रकना-
गरैः । पाठा विडङ्गेन्द्रयवहिंशुभाग-
वचान्वितैः ॥ १८८ ॥ सर्षपाऽतिवि-
षाजाजी चित्रकैरण्डकट्टुमैः । तज-
कुष्ठजामोदाद्वा कटुका तेजनी समैः
॥ १८९ ॥ भागैः संचूर्णितैरेषां त्रिफला
त्रिगुणा भवेत् । सर्वेषामेव द्रव्याणां
समो देयोऽथ गुग्गुलुः ॥ १९० ॥
एकीकृत्य शुभे भाण्डे मधुना सुपरि-
प्लुतः । योगराज इति ख्यातो योगो-
ऽयममृतोपमः ॥ १९१ ॥ एष निष्प-
रिहारस्तु पानभोजनमैथुनैः । रेतो-
दोषाश्च ये पुंसां योनिदोषास्तु योषि-
ताम् ॥ १९२ ॥ निहन्ति सर्वान्दुर्वा-
रान्नात्र काय्या विचारणा । अर्शासि
वातगुल्मश्च वातरोगमरोचकम् ॥
॥ १९३ ॥ नाभिश्शूलमुदावर्त्त हृद्रोगं
ग्रहणीं तथा । क्षयं कुष्ठमपस्मारं प्रमेहं
वातशोणितम् ॥ १९४ ॥ महान्तम-
भ्रिसादश्च कासं श्वासं भगन्दर-
म् । सर्वव्याधिविनिर्मुक्तो जीविद्वर्षश-
तद्वयम् ॥ १९५ ॥ क्षीराज्यरसगूषाक्तं
दोषधात्वनलोचितम् । बुभुक्षितो
मात्रयाऽन्नमद्याद्गुग्गुलुसेवकः ॥ १९६ ॥
वातं स्थिरादिकाथेन पित्तं काकोलि-
कादिना । आरग्वधाद्येन कफं पीतो
जयति गुग्गुलुः ॥ १९७ ॥ दावीकाथेन

मेहं जयति मधुयुतो मेदसश्चापि वृद्धिं
पाण्डुत्वं मूत्रयुक्तः क्षपयति विचि-
तं छागदुग्धेन सिद्धः । निम्बकाथेन
कुष्ठं श्वयथुमतिवलं मूलककाथपीतः
क्षिप्रं कुम्भीकवृक्षस्वरसपरिगतो मूष-
कग्रासदोषान् ॥ १९८ ॥

पीपल, पीपलामूल, चन्च, चीता, सोठ, पाठ,
वायविडग, इन्द्रजा, हींग, वच, सरसो, अतीस,
जीरा, चीता, अण्डकी जड, तज, कूठ, अजमोद,
कुटकी और तेजवल ये समान भागलेवे, त्रिफला तीन
भाग लेवे, सबका एकत्र चूर्ण करे और सब चूर्णके
वरावर गुगललेवे । सबको शहदमं मिलाकर एक
उत्तम चिकने वासनमे भरकर रख देवे । इसको
योगराजगुगल कहते हैं । यह अमृतके समान गुणका-
रक है । इसपर पान, भोजन और मैथुनका कुछ
परहेज नहीं है । जो पुरुष शुक्रदोषके पीडित हैं
और जो स्त्री योनिरोगवाली हैं उन सबके दुस्तर
रोगको यह योगराजगुगल निश्चय दूर कर देता है
तथा सब प्रकारकी वनासीर, वात, गुल्म, वातरोग,
अराचि, नाभिगुल, उदावर्त, हृदयरोग, संग्रहणी,
क्षय, कुष्ठ, अपस्मार, प्रमेह, वातरक्त, अत्यन्त
अग्निकी मंदता, खौंसी, ग्वास, भगन्दर और सब
प्रकारके रोगोंसे विमुक्त होकर दो सौ वर्षपर्यन्त
जीता रहता है । इसपर दोष धातु और अग्निके बला-
नुसार भूखके लगनेपर दूध, घी, मांसरस और यूपके
साथ अन्नका भोजन करे । इस योगराजगुगलको
वातरोगमें—गालिपर्णिकादि औषधियोंके काथके साथ
पान करे, पित्तरोगमें काकोली आदिके काथसे, कफ-
रोगमें अमलतास आदिके काथके साथ पान करे। यह
दारुहल्दीके काथसे प्रमेहको, शहदके साथ मेढकी
वृद्धि (स्थूलता) को, बकरीके दूधके साथ पाण्डुरोग
और मूत्रकृच्छ्रणो, नीमके काथके साथ कोढको,
मूलीके काथके साथ सूजनको और जलकुम्भीके
स्वरसके साथ सेवन करनेसे चूहेके बिपको दूर करता
है ॥ १८८—१९८ ॥

श्रीवाहुशालगुड ।

त्रिवृत्तेजोवती दन्ती श्वदंष्ट्रा चित्र-
कं शटी । गवाक्षी मुस्तविश्वाहावि-
डङ्गानि हरीतकी ॥ १९९ ॥ पलोन्मि-

तानि चैतानि पलान्यष्टावरुष्करात् ।
वृद्धदारुपलान्यष्टौ सूरणस्य च षो-
डश ॥ २०० ॥ जलद्रोणे पचेत्काथं
चतुर्भागावशोषितम् । पूतन्तु तं रसं
भूयः काथेभ्यो द्विगुणो गुडः ॥ २०१ ॥
लेहं पचेत्तु तं तावद्यावद्वर्षीप्रलेपन-
म् । अवतार्य ततः पश्चाच्चूर्णानीमा-
नि दापयेत् ॥ २०२ ॥ त्रिवृत्तेजोवती-
कन्दचित्रकान्द्विपलांशकान् । एला-
त्वङ्मरिचं चापि गजाह्वाश्चापि षट्प-
लम् ॥ २०३ ॥ द्वात्रिंशच्च पलञ्चैव
चूर्णयित्वा निधापयेत् । ततो मात्रां
प्रयुञ्जीत जीर्णं क्षीररसाशनः ॥ २०४ ॥
पञ्चगुल्मान्प्रमेहांश्च पांडुरोगं हलीम-
कम् । जयेदर्शांसि सर्वाणि तथा सर्वो-
दराणि च ॥ २०५ ॥ दीपयेद्गृह्णीं
मन्दां यक्षमाणं चापकर्षति । पीनसे
च प्रातिश्याय आमवाते तथैव च ॥
॥ २०६ ॥ अयं सर्वगदेष्वेव कल्याणो
लेह उत्तमः । दुर्नामान्तकरश्चासौ
दृष्टो वारसहस्रशः ॥ २०७ ॥ भवन्त्यनेन
पुरुषाः शतवर्षा निरामयाः । दीर्घा-
युषः प्रजननो वलीपलितनाशनः ॥
॥ २०८ ॥ रसायनवरश्चैष मेधाजनन
उत्तमः । गुडः श्रीवाहुशालोऽयं दुर्ना-
मारिः प्रकीर्तितः ॥ २०९ ॥

निसोत तेजवल, दन्ती, गोखरू, चीता, कचूर,
इन्द्रायण, नागरमोथा, सोठ, वायविडंग और हरड
प्रत्येक चार २ तोले, भिलावे ८ पल, विधारा ८ पल
और जिमीकन्द १६ पल लेवे, पश्चात् इन सबको
एक द्रोण जलमें पकावे । जब चौथाई भाग जल शेष
रह जाय तब उतार कर बसमें छान लेवे । फिर उस
काथसे दुगुना गुड डालकर मंद २ अग्निसे धीरे २
पकावे जब पकते २ करछीसे चिपकने लगे तो उतार
लेवे फिर इसमें निसोत, तेजवल, जिमीकन्द और
चीता प्रत्येकका चूर्ण आठ आठ तोले, इलायची

दालचीनी, कालीसिरच और गजपीपल प्रत्येकका चूर्ण छ. छ पल मिला देवे, इसको शक्यनुसार भक्षण करे । इस औषधिके जीर्ण होनेपर दूध और मांसरस (सोरुआ) का भक्षण करे । यह गुड—पांचप्रकारके गुल्म, सब प्रकारके प्रमेह, पाण्डुरोग, हलीमक, सब प्रकारकी ववासीर और सर्वप्रकारके उदररोगोंको नष्ट करता है । मंदाग्निको दीपन करता और राजयक्ष्माको नष्ट करता है। यह वाहुगालगुड पीनस, प्रतिग्याय, आमवान और सब प्रकारके रोगोंमें हितकारी है । यह ववासीर रोगको विशेष करके दूर करता है, ऐसा हजारों वार देखा गया है। इसको सेवन करनेसे मनुष्य रोगोंसे छूटकर सौवर्षतक जीता रहता है । यह गुड आणुको बढ़ानेवाला, सन्तानोत्पादक, वलीपलित नाशक, उत्तम रसायन, उत्तम मधुजनक है इस श्रीवाहुगालगुडको “ दुर्नामारि” भी कहते हैं ॥ १९९—२०९ ॥

गुडपाक ।

सार्धं पलं पलं चार्धं विदध्याद्गुडखण्डयोः । श्रेष्ठमध्यमहीनेषु मात्रेयं मुनिना स्मृता ॥ २१० ॥ तोयपूर्णे यदा पात्रे क्षिप्तो न प्लवते गुडः । क्षिप्तस्तु निश्चलस्तिष्ठेत्पातितरतु न शीर्यते ॥ २११ ॥ यदा दर्वीप्रलेपः स्याद्वावद्वातन्तुली भवेत् । एष पाको गुडादीनां सर्वेषां परिकीर्तितः ॥ २१२ ॥ सुखमूर्द्धः सुखस्पर्शो गन्धवर्णरसान्वितः । पीडितो भजते मुद्रां गुडः पाकमुपागतः ॥ २१३ ॥

गुड और खाडकी छ तोले, चार तोले और दो तोले की क्रमशः उत्तम मध्यम और हीनमात्रा कही हैं । जलसे भरे हुए पात्रमें गुडको डाले जो वह गुड जलमें न डूबे किन्तु निश्चल भावसे ठहर जावे और चारों तरफको न फेले, तथा जो करछीसे लगने लगे और जिसमें तन्तुसे छूटने लगे तो गुडपाक हुआ जानना । यह गुडपाककी विधि सब जगह कही है । जो हाथमें मलनेमें और छूनेमें नरम हो जाय, जिसमें गन्ध, वर्ण और रस पूर्ण हो तथा जिसको अंगुलियोंसे मलनेसे वत्तीसी बन जाय तो वह उत्तम विधिसे गुडपाक हुआ जानना ॥ २१०—२१३ ॥

लोहवर्णन ।

मुण्डं तीक्ष्णञ्च कान्तञ्च त्रिप्रकारमयः स्मृतम् । मृदु कुण्डञ्च कण्डारं त्रिविधं मुण्डमेव च ॥ २१४ ॥

मुण्ड, तीक्ष्ण और कान्त इन भेदोंसे लोहा तीन प्रकारका कहा है । उनमें मुण्डलोह, मृदु, कुण्ड और कण्डार इन भेदोंसे तीन प्रकारका है ॥ २१४ ॥

मृदुलक्षण ।

हतद्रावमविस्फोटं मृदु कुम्भहतं च यत् ।

जो गीत्र पतला हो जाय, वनकी चोटसे न टूटे और सचिक्रण हो उसको मृदु जानना ॥

कुण्डलक्षण ।

वट्टने प्रसरं दुःखात्तत्कुण्डं मध्यमं स्मृतम् ॥ २१५ ॥

वडी मुठिकलसे वनकी चोटसे जो पतला हो वह कुण्डसज्ञक मध्यम लोह कहा है ॥ २१५ ॥

कण्डारलक्षण ।

विधृतं भज्यते भङ्गं कृष्णं कण्डालकं स्मृतम् ॥ २१६ ॥

जो वनकी चोटसे टूटकर भीतरसे काला निकले उसको कण्डार (ल) लोह कहते हैं ॥ २१६ ॥

मुण्डजातिमृदुलोहगुण ।

मुण्डं वरं मृदुलकं कफवातशूलशूलाममेहगुदजामयपाण्डुहारि । गुल्मामवातजठरार्तिहरं प्रदीपि शोफापहं रुधिरकृत्वलु कोष्ठशोधि ॥ २१७ ॥

मृदुनामक मुण्डजातिका लोह उत्तम, नरम तथा कफवात, शूल, आमशूल, प्रमेह, ववासीर, पाण्डुरोग, गुल्म, आमवात, उदररोग और सूजनको हरनेवाला है अग्निको दीपन करनेवाला, रुधिरको उत्पन्न करनेवाला और कोठेको शुद्ध करनेवाला है ॥ २१७ ॥

तीक्ष्णभेद ।

खराख्यं योगरं सारं कर्णकं द्रावकं
तथा । रोमकं षड्विधं तीक्ष्णं मुनि-
भिः परिकीर्तितम् ॥ २१८ ॥

खर, योगर, सार, कर्णक, द्रावक और रोमक
इन भेदोंसे तीक्ष्ण लोहा छः प्रकारका है ॥२१८ ॥

कान्तलोहभेद ।

हुन्तालमपरं तारं वट्टं वाजरकालकम् ।
कान्तं सप्तविधं प्रोक्तं भ्रामकं चुम्बकं
तथा ॥ २१९ ॥

हुन्ताल, तार, वट्ट, वाजर, कालक, भ्रामक और
चुम्बक इन भेदोंसे कान्तलोह सात प्रकारका है २१९

**खरयोगरहुन्तालवाजरादि
लोहके भेद ।**

नीलं कृष्णमतिस्निग्धं सूक्ष्मं सारमयः
शुभम् । न नभेद्भ्रुरं यत्तत्खरलोहमु-
दाहृतम् ॥ २२० ॥ कृष्णपाण्डुरकच्छु-
रबीजतुल्यन्तु योगरम् । विच्छेदने-
ऽतिपरुषं हुन्तालमिति कथ्यते २२१ ॥
योगैर्वज्रसङ्काशैः सूक्ष्मैर्युक्त्वैश्च सा-
न्द्रकैः । निशितं श्यामलाङ्गश्च वाजरं
तत्प्रकीर्तितम् ॥ २२२ ॥

जो भीतरसे नीला, काला, अत्यन्त चिकना,
सूक्ष्म, सारयुक्त और तोड़नेसे नवे नहीं किन्तु टूट
जावे उसको उत्तम खर लोहा जानना । जो काला,
पाण्डुरंगका और जिसमें पारेके समान तिरछी
लकीर हो उसको योगर कहते हैं । जो तोड़नेमें
अत्यन्त कठोर हो उसको हुताल कहते हैं, जो तोड़ने-
में वज्रके समान प्रकाशित हो, सूक्ष्म रेखायुक्त,
भारी और काला हो उसको वाजर कहते हैं ॥२२०॥
२२१॥२२२ ॥

नीलं कृष्णप्रभं सान्द्रमव्रणं गुरुतार-
कम् । अयः परशवन्तीक्ष्णशस्त्रं काला-
यसं खरम् ॥ २२३ ॥

जो नीला, काला, नरम, व्रणरहित अर्थात् चिकना
और भारी हो उसको तार कहते हैं। पारशव, तीक्ष्ण,
शस्त्र, कालायस और खर ये खरलोहके नाम हैं २२३

खरलोहगुण ।

रूक्षं स्यात्खरलोहकं समधुरं पाके च
वीर्य्यं हिमं तिक्तोष्णं कफवातपित्त-
जनितप्लीहामपांङ्गार्त्तिनुत् । यः
शूलयकृद्दक्षयजरामोहामवातापहं
दीपितं चातिरसायनं कफहरं दुर्नामभे-
दापहम् ॥ २२४ ॥

खरलोहा—रूखा, पाकमें मधुर, जीतवीर्य्य,
कडवा, गरम, कफ, वात और पित्तसे उत्पन्न हुए प्लीहा
और पाण्डु आदि रोगोंको नष्ट करता है । तत्काल
शूल, यकृत, क्षयरोग, जरा, मोह और आमवातरोग-
को नष्ट करता है । अग्निको दीपन करनेवाला,
अत्यन्त रसायन, कफनाशक और ववासीरको
हरनेवाला है ॥ २२४ ॥

खरलोहात्परं सर्वभैकैकं स्याच्छतो-
त्तरम् ॥ २२५ ॥

खरलोहसे परे प्रत्येक लोहमें सौ सौ गुण
अधिक है ॥ २२५ ॥

गुडूचीहंसपादी च रक्तमालाफलत्र-
यम् । गोपालिका गोरसना तुम्बुरुं
लोहतप्तकम् । एषां रसेः सिञ्चयेत्त-
द्विरिदोषनिवृत्तये ॥ २२६ ॥

गिलोय, हसपदी, रक्तमाला, त्रिफला, गोपीवल्ली,
गोजिया और तुम्बुरु इनके रसमें लोहेको तपाकर
गिरिदोष दूर करनेके लिए वारंवार बुझावे ॥२२६॥

तत्तदा करसम्भूतं तत्तद्रोगविनाश-
नम् । तेन तस्य परीक्षायां यतेमहि
सहेतुकम् ॥ २२७ ॥

लोहा जैसी २ खानसे उत्पन्न होता है उसी २ के
अनुसार गुणकारक और रोगनाशक जानना । इस
कारण उसकी यत्नपूर्वक परीक्षा करना चाहिए २२७

कन्तकं तण्डुलाङ्गं स्यादार्यवन्मलयो-
परि । कृशताडं कृशाङ्गश्च शूलाग्रश्चो-
ग्रदेशजम् ॥ २२८ ॥

कन्तकलोहा चावलोके समान होता है और वह आर्य तथा मलयपर्वतपर होता है । कृग ताड लोहा बहुत पतला होता है वह शूलके अग्रभागमे लगाया जाता है और उग्रदेशमे होता है ॥ २२८ ॥

पाण्डिजं द्विविधं कृष्णं शुक्तञ्च सम-
दाडिमम् । भद्रमैरण्डबीजांगं स्तुही-
पत्रनिभं शुभम् ॥ २२९ ॥

पाण्ड्य लोहा काला और सफेद इन भेदोंसे दो प्रकारका है । उनमे अतारके समान, अंडके बीजके समान और शूहरके पत्तोंके समान श्रेष्ठ होता है ॥ २२९ ॥

वज्रदमर्कपत्राङ्गमीषत्स्वर्णच्छवि द्वि-
धा । कान्तं मृदुतरं ताडं रूक्षं कान्ति-
शित्तीकरम् ॥ २३० ॥

वज्रलोहा आकके पत्तोंके समान और किंचित् सोनेकी कान्तिके समान ऐसे दोप्रकारका होता है । कान्तलोह बहुत नरम होता है, ताड रूखा और काली कान्तिवाला होता है ॥ २३० ॥

क्षुद्राङ्गं गुरुतरं स्यात्कलिङ्गजमयः
स्मृतम् । रूक्षं रुक्मप्रतीकाशं तीक्ष्णं
मृदुफलं स्मृतम् ॥ २३१ ॥

तारलोहा—छोटा २ भारी—और कलिगदेशमे उत्पन्न होता है । तीक्ष्णलोहा—रूखा, सोनेके समान प्रकाशमान और उसका फल नरम होता है ॥ २३१ ॥

यकृत्प्लीहशिरःशूलमम्लपित्तानिलो-
द्भवम् । पार्श्वरोगहतं वातं हन्याद्वा-
तकफोद्भवम् ॥ २३२ ॥ छर्द्यतीसारशू-
लानि परिणामोद्भवं तथा । वातं सर्वा-
ङ्गिकं पित्तं निहन्याच्चोग्रदेशजम् २३३ ॥

उग्रदेशमे उत्पन्न हुआ लोहा—यकृत, प्लीहा, शिर शूल, अम्लपित्त, वातसे उत्पन्न हुआ पार्श्व-शूल, वातकफसे उत्पन्न हुई वमन, अतीसार, परिणामशूल, सर्वांगवात, वात और पित्त इन सबको नष्ट करता है ॥ २३२ ॥ २३३ ॥

भेदनं दीपनं वर्द्धेदुर्नामाख्यं त्रिदोष-
जम् । गात्रभेदं कफं वातं हन्ति वज्रो-
द्भवं तु यत् ॥ २३४ ॥

वज्रमे उत्पन्न हुआ लोहा—भेदक, अग्निको दीपन करनेवाला, त्रिदोषसे उत्पन्न हुई ववासीर, शरीरमे भेदने सरीखी पीडा, कफ और वातको नष्ट करता है ॥ २३४ ॥

गुल्मश्च पाण्डुरोगश्च ज्वरांश्च विषमौ-
द्भवान् । अर्शासि श्वासशोथांश्च प्रमे-
हांश्च विशेषतः ॥ २३५ ॥ गलप्रहं रक्त-
पित्तं मरुद्रोगं भयानकम् । निद्रा-
लस्यावरोधश्च निहन्यात्पाणिदेशज-
म् ॥ २३६ ॥

पाणिदेशमे उत्पन्न हुआ लोहा—गुल्मरोग, पांडुरोग, विषमज्वर, ववासीर, श्वास, सूजन, विशेष करके प्रमेह, गलप्रह, रक्तपित्त, दारुण वातरेग, निद्रा और आलस्यको नष्ट करता है ॥ २३५ ॥ २३६ ॥

रक्तोत्थं चापि चोष्माणं रक्तपित्तं सु-
दारुणम् । मूर्च्छाच्छर्दिहरं दाहं वज्रं
शमयति ध्रुवम् ॥ २३७ ॥ सर्वाङ्गोगा-
त्रिहन्याशु कुष्ठाष्टादशसम्मितान् ।
पावनं पुत्रजननं वन्ध्यायां वीर्यवर्द्ध-
नम् । बल्यं क्षयापहं धातुबृंहणं स्या-
त्कलिङ्गजम् ॥ २३८ ॥

कलिगदेशमे उत्पन्न हुआ लोहा—हविरसे उत्पन्न हुई गरमी, दारुण रक्तपित्त, मूर्च्छा, वमन और दाह इनको वज्रलोह निश्चय शमन करता है, सब प्रकारके रोगों और अटारह प्रकारके कोढ़ोंको हरता है, पवित्र, वन्ध्या स्त्रियोंके पुत्रको उत्पन्न करने वाला, वीर्यवर्द्धक, बलकारक, क्षयनाशक और धातुको पुष्टिकारक है ॥ २३७ ॥ २३८ ॥

एतानि सर्वाणि विचेष्टितानि हि-
तानि रोगोपशमाय सन्ति । वयो-
विशेषेषु विशेषविज्ञैर्विज्ञाय दत्तानि
च देशकाले ॥ २३९ ॥

यह सब लोह अनेक प्रकारकी चेष्टाओंसे, अनेक प्रकारके अनुपानोंसे, विविधप्रकारके रोगोंको हरने-वाले हैं इस कारण इनको अवस्था, देश और कालका अच्छे प्रकार विचार कर प्रयोग करे ॥ २३९ ॥

सामान्याद्द्विगुणश्चोत्रं तस्मादष्टगुणं
कलिः । कलेर्दशगुणं भद्रं भद्राद्भज्रं स-
हस्रधा ॥ २४० ॥ वज्रात्षष्टिगुणं पा-
ण्डिर्निरचिर्दशभिर्गुणैः । ततः कोटि-
सहस्रेण त्वयःकान्तं महागुणम् २४१ ॥

सामान्यलोहेसे दूने गुण उग्रलोहेमे, उग्रलोहेसे
दशगुण अधिक कलिगमे, कलिंग लोहेसे दशगुण
अधिक भद्रलोहेमे, भद्रलोहेसे हजारगुण अधिक वज्र
लोहेमे, वज्रसे साठगुण अधिक पाण्डिलोहेमें और
उससे अधिक एक करोड हजार गुण कान्तलो-
हेमे है ऐसा जानना चाहिए ॥ २४० ॥ २४१ ॥

अग्निमुखलोह ।

त्रिवृच्चित्रकानिर्गुण्डी स्तुही मुण्डित-
का जडा । प्रत्येकशोऽष्टपलिका जल-
द्रोणे विपाचयेत् ॥ २४२ ॥ पादशेषे
रसे तस्मिन्पुनस्तेन विपाचयेत् ।
पलद्वयं विडङ्गस्य व्योषात्कर्षद्वयं
पृथक् ॥ २४३ ॥ त्रिफालायाः पलं पञ्च
शिलाजतुपलं न्यसेत् । दिव्यौ-
षधहतस्यापि वैकङ्कतहतस्य वा ॥
॥ २४४ ॥ पलद्वादशकं देयं रुक्म-
लोहस्य चूर्णितम् । मधुशर्करयोर्युक्तं
चतुर्विंशतिभिः पलैः ॥ २४५ ॥ घनी-
भूते सुशीते च दापयेदवतारयेत् ।
एतदग्निमुखं नाम दुर्नामान्तकरं परम्
॥ २४६ ॥ मन्दमग्निं करोत्याशु काला-
ग्निमतोजसम् । पर्वतोप्यवजीर्येत
प्रसादादस्य देहिनाम् ॥ २४७ ॥ गु-
रुपिष्टान्नपानानि पयो मांसरसा हि-
ताः । दुर्नामपांडुश्चयथुप्लीहकुष्ठोदराप-
हम् ॥ २४८ ॥ न स रोगोऽस्ति यश्चापि
न निहन्यादिदं क्षणात् । करीरकाग्नि-
कांदीनि ककारादीनि वर्जयेत् । स-
वत्यतोऽग्यथा लोहो देहात्किदृश्च
दुर्जयम् ॥ २४९ ॥

निसोत, चीता, निर्गुण्डी, थूहर, गोरखमुण्डी और
मुईआमले ये प्रत्येक आठ २ पल लेकर एक द्रोण-
जलमे पकावे जब चौथाई भाग जल शेष रह जाय
तब उतारकर छान लेवे। फिर उसमे वायविडंगका
चूर्ण दो पल, त्रिकुटेका चूर्ण छ. तोले, त्रिफलेका
चूर्ण २० तोले, शिलाजीत ४ तोले फिर मैनागिलसे
अथवा विकंकत (कंटाई) के रससे मारा हुआ
तीक्ष्ण लोहेका चूर्ण १२ पल डालकर विधिपूर्वक
पकावे, जब गाढा होकर जीतल हो जाय तब शहद
और खांड २४ पल मिलाकर उतार लेवे। यह अग्नि-
मुख लोह ववासीरको नष्ट करनेवाला है, मन्दाग्निको
कालाग्निसे समान दीपन करता है, इसके प्रभावसे
मनुष्योंके पत्थर तक भी जीर्ण हो जाते हैं। इसपर
भारी पदार्थ, पिष्टके पदार्थ, भारी अन्नपान, दूध, मांस-
रस (सोरुआ) और घी ये सब हितकारक है।
यह अग्निमुख लोह ववासीर, पाडु, सूजन, ग्रीहा,
कुष्ठ और उदररोगको नष्ट करता है। ससारमे ऐसा
कोई रोग नहीं है जो इस लोहेके सेवन करनेसे
आरोग्य नहीं हो। इसपर करीर, काँजी आदि कका-
रादि पदार्थ छोड देवे यदि अन्यप्रकारसे इस लोहे-
को सेवन किया जाय तो यह लोहा शरीरसे फूटकर
निकल जाता है ॥ २४२—२४९ ॥

लोहाष्टक ।

पलद्वादशकं कृत्वा कृष्णलोहस्य ख-
ण्डशः । भाङ्गर्थम्बष्ठासगण्डीरमूलैः
पिण्डं प्रलेपयेत् ॥ २५० ॥ दत्त्वा प्रध-
मयेत्तावद्यावत्सर्वमृतं भवेत् । घृतस्य
षट्पलं देयं शर्करायास्तथैव च ॥ २५१ ॥
सूर्यावर्त्तरसप्रस्थे त्रिफलासहिते शु-
भे । प्रक्षिप्य विपचेद्द्रव्यो यावत्सान्द्र-
त्वमेति च ॥ २५२ ॥ सिद्धे रात्र्युषिते
बीजं सूर्यावर्त्तस्य दापयेत् । कर्षं त्रि-
कटुकस्यापि त्रिकर्षं चूर्णसंयुतम् २५३ ॥
मधुत्रिपलसंयुक्तं यथाग्निं चोपयोजये-
त् । अर्शासि कामला कुष्ठपाण्डुरोग-
कृमीस्तथा ॥ २५४ ॥ वृद्धिं गुल्मोदरं
शोथं विशेषात्परिणामजम् । शूला-
न्निहन्ति सर्वास्तु विकारान्नात्र संशयः

॥ २५५ ॥ एतल्लोहाष्टकं नाम सर्वदो-
षहरं परम् ।

कृष्णलोहेको १२ पल लेकर टुकड़ कर लेवे फिर भारंगी, पाठ और समष्टिल वृक्षकी जडको पीसकर उनके ऊपर प्रलेप करे पश्चात् उनको अग्निमें रखकर फूँके जवतक वह सब अच्छे प्रकारसे न मरजावे तब तक अग्नि देवे फिर उस भस्ममें ६ पल घी, छः पल खांड, हुलहुलका रस १६ तोले और त्रिफलेका काथ ६४ तोले मिलाकर जवतक वह गाढा न हो तबतक पकावे, जब सिद्ध हो जाय तब उसमें रात्रिमें भीजे हुए हुलहुलके बीजोका चूर्ण एक तोला, त्रिकुटेका चूर्ण तीन तोले और गहद तीन पल मिला देवे अग्नि-का बलाबल विचारकर इसको भक्षण करे । यह लोहाष्टक सब प्रकारकी बवासीर, कामला, कुष्ठ, पाडु, कृमिरोग, अंडवृद्धि, गुल्म, उदररोग, सूजन विशेष करके परिणामशूल और सब प्रकारके शूलोको नि-सन्देह नष्ट करता है ॥ २५०—२५५ ॥


चव्यादिलोह ।

चव्यं पलाष्टकं देयं खदिरं चार्द्धमेव
च । चित्रकस्य पलं पञ्च तालमूली
च तत्समा ॥ २५६ ॥ त्रिफलाप्रस्थसंयुक्तं
जलद्रोणे विपाचयेत् । अष्टभागाव-
शेषेण कषायमवतारयेत् ॥ २५७ ॥
आज्यात्पलाष्टकं देयं रुक्मलोहस्य
षोडश । पचेत्ताम्रमये पात्रे सुशीते
चावतारयेत् ॥ २५८ ॥ त्रिवृद्धन्ती-
विडङ्गानि पथ्या चामलकानि च ।
शुण्ठी विभीतकं कृष्णा एषां चूर्णं प-
लार्धकम् ॥ २५९ ॥ शर्करा मधु
चत्वारि स्निग्धे भाण्डे निधापयेत् ।
गुरुवृष्यान्नपानानि पयो मांसरसो
हितः ॥ २६० ॥ दुर्नामकुष्ठश्वयथु-
पाण्डुप्लीहोदराणि च । गुदशूले कु-
क्षिशूले परिणामकृते हितः ॥ २६१ ॥
बलवर्णकरं वृष्यमग्निसन्दीपनं परम् ।

करिरं काञ्जिकञ्चैव काकमाचीञ्च व-
र्जयेत् ॥ २६२ ॥

चव्य ३२ तोले, खैर १६ तोले, चीता २० तोले,
मुसली २० तोले और त्रिफला ६४ तोले लेकर एक
द्रोणमें पकाव जव आठवाँ भाग जल शेष रह जाय
तब उतारकर छान लेवे फिर उस काथमें घी ३२
तोले और तीक्ष्ण लोहभस्म ६४ तोले डालकर तावेके
वासनमें पकावे जव पकते पकते गाढा होकर स्वांग-
शीतल हो जाय तब उतार लेवे फिर उसमें निसोत,
दन्ती, वायविडंग, हरट, आमले, सोठ, बहेडा और
पीपल इन प्रत्येकका चूर्ण दो दो तोले, गहद १६ तोले
और मिश्री १६ तोले मिला देवे, पश्चात् इसको
एक चिकने वासनमें भरकर रखदेवे । इसपर
भारी और वृष्य अन्नपान दूध और मांसरस हित-
कारी है । यह चव्यादिलोह-बवासीर, कोठ, सूजन,
पाण्डु, प्लीहा, उदररोग, गुदशूल, कुक्षिशूल और
परिणामशूलको नष्ट करता है । बल और वर्णको
बढाता है, वीर्यवर्द्धक और जठराग्निको दीपन
करताहै । इसपर करील, कौजी, काकमाची(मकोय)
और सब ककारादि पदार्थ त्याग देवे २५६—२६२ ॥

अथ शङ्करलोह ।



प्रणम्य शङ्करं देवं दण्डपाणिं महेश्व-
रम् । जीवितारोग्यमन्विच्छन्नारदः
पृच्छते गुरुम् ॥ २६३ ॥ सुखोपायेन
हे नाथ शस्त्रक्षाराग्निभिर्विना ।
दुर्बलानाञ्च भीरूणां चिकित्सां वक्तु-
मर्हसि ॥ २६४ ॥ स शिष्यवचनं श्रुत्वा
लोकानां हितकाम्यया । अर्शसां
नाशनं श्रेष्ठं भैषज्यमिदमीरितम् २६५
पांडिवज्रादिलोहानामादायान्यतमं
शुभम् । कृत्वा निर्मलमादौ तु कुन-
ट्या माक्षिकेन च ॥ २६६ ॥ पत्तू-
रमूलकल्केन स्वरसेन दहेत्ततः । व-
ह्नौ निक्षिप्य विधिवत्स्थूलाद्गारेण
निर्धमेत् ॥ २६७ ॥ ज्वाला च तस्य

रोद्धव्या त्रिफलाया रसेन तु । ततो
विज्ञाय गलितं शङ्कुनोर्ध्वं विनिः-
क्षिपेत् ॥ २६८ ॥ त्रिफलाया रसे पूते
तदाकृष्य विनिर्वपत् । न सम्यग्ग-
लितं यत्तु तेनेव विधिना पुनः ॥ २६९ ॥
ध्मातं निर्वापयेत्तस्मिँल्लोहं तत्रिफ-
लारसे । यल्लोहं न मृतं तत्तु पाच्यं
भूयोऽपि पूर्ववत् । मारणान्न मृतं यच्च
तत्पक्तव्यमलोहवत् ॥ २७० ॥ तद-
लुलोहवल्लोहपात्रे कालायसमुद्दरेण
संचूर्ण्य । हत्वा बहुशः सलिले
प्रक्षालयाद्गारादुद्धृतन्तदयः ॥ २७१ ॥
केवलमग्नौ शुष्की कृत्वाऽऽनपेऽथवा
भिषक् पश्चात् । लोहशिलायां पिष्ट्वा
तस्मिँल्लभिनि तदप्राप्तौ ॥ २७२ ॥
ततः संशोष्य विधिवच्चूर्णयेल्लोह-
भाजने । लोहेनैव तथा यत्स्यात् दृषदा
सूक्ष्मचूर्णितम् ॥ २७३ ॥ कृत्वा लोह-
मये पात्रे मार्दे वा लितरन्धके । रसैः
पङ्कोपमं कृत्वा पचेद्भोग्यवह्निना ॥
॥ २७४ ॥ पुटानि क्रमशो दद्यात्
पृथग्गणां विधानतः । त्रिफलाद्रकभृ-
ङ्गाणां केशराजस्य बुद्धिमान् ॥ २७५ ॥
मानकन्दकभल्लातवह्नीनां सूरणस्य
च । हस्तिकर्णपलाशस्य कुलिश-
स्य तथैव च ॥ २७६ ॥ पुटे पुटे
चूर्णयित्वा लोहात् षोडशिकं पलम् ।
तन्मानं त्रिफलायाश्च पलेनाधिक-
माहरेत् ॥ २७७ ॥ अष्टभागाव-
शेषेण रसे तस्याः पचेद्बुधः । अष्टौ
पलानि दत्त्वा च सर्पिषो लोहभाजने
॥ २७८ ॥ ताम्रे वा लोहदाव्यां तु
चालयेद्विधिपूर्वकम् । ततः पाकवि-
धानज्ञः स्वच्छे चोर्ध्वं च सर्पिषि २७९
मृदुमध्यादिभेदेन गृह्णीयात्पाकमाह-

तः । आरभेत विधानज्ञः कृतकौतुक-
मङ्गलः ॥ २८० ॥ भ्रामरं घृतसंयुक्तं
लिहेद्वा रक्तिकाक्रमात् । वर्धमाना-
नुपानञ्च गव्यं क्षीरोत्तमं मतम् २८१
गव्यालाभे ह्यजायाश्च स्निग्धवृष्यादि-
भोजनमासद्यो वह्निकरञ्चैव भस्मकञ्च
नियच्छति ॥ २८२ ॥ हन्ति वातं तथा
पित्तं कुष्ठानि विषमज्वरम् । गुल्मशू-
लाक्षिरोगांश्च निद्रालस्यमरोचकम् ॥
॥ २८३ ॥ शूलञ्च परिणामञ्च प्रमेहम-
पवाहुकम् । श्वयथुं रक्तम्रावञ्च दुर्ना-
मञ्च विशेषतः ॥ २८४ ॥ बलकृद्बृंह-
णञ्चैव कान्तिदं स्वरबोधनम् । लाघ-
वञ्च मनोज्ञञ्च आरोग्यं पुष्टिवर्द्धनम् ॥
॥ २८५ ॥ आयुष्यं श्रीकरञ्चैव यशस्ते-
जस्करं शुभम् । सश्रीकं पुत्रजननं
वलीपलितनाशनम् ॥ २८६ ॥
दुर्नामारिरयं नाम्ना दृष्टो वार-
सहस्रशः । निर्मूलं दह्यते शीघ्रं
यथा तूलकमग्निना ॥ २८७ ॥ सौ-
कुमार्य्याऽल्पकार्यत्वान्मद्यसेवी यदा
नरः । जीर्णमद्यादियुक्तानि भोजनैः
सह पाययेत् ॥ २८८ ॥ लावतित्ति-
रिवार्त्ताकमयूरशशकादयः । चटकः
कलविद्धश्च वर्त्तिश्च हरिणैणकः २८९ ॥
श्येनः काको बृहल्लावो वनविष्किरि-
कादयः । पारावतमृगादीनां मांसं
जाङ्गलजं शुभम् ॥ २९० ॥ महुरो
रोहितः श्रेष्ठः शकुनश्च विशेषतः ।
मत्स्यराज इमे प्रोक्ता हितमत्स्याश्च
ये नराः ॥ २९१ ॥ प्रशस्तं वार्त्ताकफलं
पटोलं बृहतीफलम् । प्रलंबा भीरुवे-
त्प्रायं ताडकं तंडुलीयकम् ॥ ३९२ ॥
वास्तुकं धान्यशाकञ्च क्रमुकं चक्रवर्त्त-

नम् । नारिकेलश्च खर्जूरं दाडिमं लव-
लीफलम् ॥ २९३ ॥ शृङ्गाटकश्च पक्वा-
म्रद्राक्षातालफलानि च । जातिकोशं
लवङ्गश्च पूगतांबूलपत्रकम् ॥ २९४ ॥
हितान्येतानि वस्तूनि लोहमेतत्सम-
श्रताम् । नाश्रीयाल्लकुचं कोलं कर्क-
न्धुबदराणि च । जम्बीरं बीजपूरश्च
करमर्दकतिन्तिडीः ॥ २९५ ॥ आनू-
पानि च मांसानि क्रकरं पुत्रदादयः ।
हंससारसदात्यूहशंक्रुकंकवलाहकाः ॥
२९६ ॥ माणकन्दकरीराणि कतकश्च
कलिङ्गकम् । कूष्माण्डकश्च कर्कोटिं के-
मुकश्च विशेषतः ॥ २९७ ॥ कटुकं काल-
शाकश्च कशेरुं कर्कटीं तथा । विद-
लानि च सर्वाणि ककारादींश्च वर्ज-
येत् ॥ २९८ ॥ लोहराजस्तथा चायं
स्वयं रुद्रेण भाषितः । जगतामुपका-
राय दुर्नामारिरयं ध्रुवम् ॥ २९९ ॥
स्थानादपति मेरुश्च पृथ्वी पर्येति वा
पुनःपतन्ति चन्द्रताराश्च मिथ्या नैव
वदास्यहम् ॥ ३०० ॥ ब्रह्मघ्नाश्च कृतघ्ना-
श्च क्रूरा येऽसत्यवादिनः । वर्जनीया
विशेषेण भिषजा गुरुनिन्दकाः ३०१ ॥
मुनिरसपिष्टविडङ्गं मुनिरसलीढं
चिरस्थितं धर्मं । द्रावयति लोहदो-
षान् वह्निर्नवनीतपिण्डमिव ॥ ३०२ ॥

एक समय श्रिकंकर, देवाधिदेव, ढण्डको धारण करनेवाले महेश्वरको प्रणाम करके मनुष्योंके जीवन और आरोग्यकी इच्छा करनेवाले नारदऋषिने जगद् गुरु (महादेव) से पूछा हे नाथ ! जलक्रिया, क्षारकर्म और आम्रिकर्मको छोड़कर सुख सहित उपायसे दुर्बल और भीरु (डरपोक, कायर), अर्जरोगवाले रोगियोंकी चिकित्सा कृपा करके कहिये, तब जिप्य (नारदजी) के वचनको सुनकर मत्स्यके प्राणियोंपर दया करके शिवजीने अर्जरोगको दूर करनेवाली यह औषधि कही । पांडुवज्रादि लोहोमेसे कोई एक उत्तम लोहा लेकर उसका भैरसिल और सोनामाखीके

द्वारा शुद्ध करे। फिर उसका पतगकी जटके कल्कके स्वरसमें बुझाकर सालके कोयलोकी आम्रिमे फूँके और उसमेंसे जो आगकी लपट निकले उनको त्रिफलेके रसके छींटे देदेकर बंट कर देवे, जब वह गल जाय तब चीमटेसे ऊपरको उठाकर त्रिफलेके रसमें बुझावे । जो अच्छे प्रकारसे न गले तो फिर इसी विधिसे वारंवार लोहेको गलाकर त्रिफलेके रसमें बुझावे और जो वारंवार आम्रिमे धमानेसे भी न गले तो उसको टुपट लोहा समझ कर छोड़ देना चाहिए । पश्चात् उसको लोहेके पात्रमें डालकर लोहेके मूंगरेसे घोटकर चूर्ण कर लेवे फिर उसको बहुतसे जलसे धोकर जिससे कि, 'कोयलोकी छई आदि छूट जावे । पश्चात् उसको अग्नि अथवा धूपमें सुखाकर लोहेकी शिलापर पीसकर विधिपूर्वक धारीक चूर्ण कर लेवे फिर उसको लोहेके पात्रमें रख उस पात्रके मुखको बन्दकर मट्टीके गारेसे लीपकर सुखावे पश्चात् आरने उपलाकी आम्रिमे पकावे । फिर क्रमसे त्रिफला, अदरक, भागरा, कुकुरभांगरा, मानकन्द, मिलावे, चीता, जिर्माकन्द, हस्तकर्णपलाश और यूहर इन प्रत्येकको रसकी अलग २ भावना देकर गजपुटमें पकावे और प्रत्येक पुटमें चूर्ण करता जाय। फिर इस लोहेके चूर्णको सोलह पतसे अधिक त्रिफलेके रसमें पुट देवे, आठवाँ भाग वाकी रहे हुए त्रिफलेके काथमें फिर इस लोहेको पकावे । पश्चात् इस लोहेके चूर्णको लोहेकी अथवा तांबेकी कढाईमें चढाकर उसमें ३२ तोले घी डालकर लोहपाककी विधिको जाननेवाला वैद्य विधिपूर्वक पकावे और लोहेकी करछीसे चलाता जाय जब स्वच्छ घी तैरकर ऊपरको आजावे तब मृदु, मन्थादि जैसा पाक करना हो वैसा पाक करके उतार लेवे । इस प्रकार जब लोहा सिद्ध हो जाय तब मत्र पढकर और अनेकप्रकारके मंगलरूप उत्सवादि कार्य करके गृहद और घीमें मिलाकर एक रत्तीके क्रमसे बढ़ाता हुआ खावे और ऊपरसे गौका दूध पीवे यह उत्तम अनुपान है । जो गौका दूध न मिले तो बकरीका दूध पीवे ओर वृष्य तथा स्निग्ध भोजन करे । यह गंकरलोह-तत्काल अग्निको दीपन करनेवाला, भस्मकरीग, वात, पित्त कोढ़, विषमञ्जर गुल्म, गूल, नेत्ररोग, निद्रा, आलस्य, अरुचि, गूल, परिणाम शूल, ग्रन्थ, अपवाहुकवात, सूजन, रुधिर

और विशेषकर ववासीरको नष्ट करता है तथा बल-कारक, वृंहण, कान्तिजनक, स्वरको सुन्दर करने-वाला, शरीरमें हल्कापन, मनोज्ञता और आरोग्य-दायक, पुष्टिकारक, आयुको बढ़ानेवाला, लक्ष्मीको बढ़ानेवाला यश और तेजको फैलानेवाला, उत्तम कान्तिवाले पुत्रोंको उत्पन्न करनेवाला, बली और पलितनाशक, यह दुर्नामारि (ववासीरका शत्रु) लोहा—हजारोंवार परीक्षा किया गया है जिस प्रकार अग्नि रुईको जला देती है उसी प्रकार इससे ववासीर जडसे भस्म हो जाती है । इसपर मद्यपान करना निषेध है । परन्तु जो निरन्तर मद्यको सेवन करते हैं और कोमल तथा अल्पशरीरवाले हैं वे जीर्ण मदिराको भोजनके साथ सेवन करते रहे । लवा, तीतर, बटेर, मोर, खरगोश आदि चिड़डा घरका चिड़ा—वतक, हिरन, कालाहिरन, सिकरा, कौआं, बडालवा वनमें रहने, वाले विकिरादि पक्षी, परेवा और सम्पूर्ण जगलीजैव इन सबका मांस, तथा मुद्गर, रोहित और शकुनी ये मछलियोंके राजा हैं ये मछली भक्षण करनेवाले मनुष्योंको हितकारी है । वैगुन, परवल, बडी कटेरीके फल, लम्बा कद्दू अथवा लम्बी तोम्बी, गतावर, वंतके अंकुर, बंदाल (सोनिया), चौलाई, वथुआ, धनियेका शाक, क्रमुक (केडवा) और चकवडका शाक, ये सब शाक हितकारी है । नारियल, खजूर, अनार, हरफारेवडी, सिंघाढे, पके आम, दाख, ताडके फल, जायफल, लौंग, सुपारी और पान ये पदार्थ हितकारक है । एवं लकुच (बडहल), बेर, बडे बेर, झडवेर, जम्भीरीनीचू, विजौरानीचू, करौदा, इमली, केकडा और पंडाकतादि अनूप देशके जीवोंका मांस, हंस, सारस, दास्यह, शंकु, कक और वगुला इनका मांस मानकन्द, करीर, निर्मलीफल, तरवूज, पेठा, ककोडा, विशेष करके केमुक शाक, सरसोंका शाक, नाडीका शाक, कंसरू, ककडी सब प्रकारके दालवाले अन्न और ककारादि समस्त पदार्थ इस लोहेको सेवन करनेवाले मनुष्यको त्याग देने चाहिये । यह दुर्नामारि लोहराज संसारके उपकारके लिये श्रीमान् भगवान् शिवजीने स्वयं कहा है । शिवजी कहते हैं कि, चोह अपने स्थानसे सुमेरु पर्वत हट जाय, पृथ्वी लौट जाय, चन्द्रमा और तारागण आकाशसे पतित

हो जाय परन्तु मेरे वचन असत्य नहीं हो सकने । ब्रह्मवाती, कृतनी, क्रूर और असत्यवादी तथा गुर-निन्दक इन मनुष्योंको यह लोहा नहीं देना चाहिए । अतएव अब इस लोहदोषकी जाति कहते हैं । वायविडगको अगस्तियाके रसमें पीसकर थोड़ी देर धूपमें रखकर अगस्तियाके रसके साथ पान करनेसे लोहेके दोष गलजाते हैं । जिसप्रकार अग्नि नैनी घीके पिण्डको जला देती है २६३-३०२

लोहपरिपाकके लक्षण ।

काले मलप्रवृत्तिर्लाघवमुदेरे विशु-
द्धिमुद्गारे । अङ्गे चानवसादो मनःप्र-
सादोऽस्य परिपाके ॥ ३०३ ॥

यथा समयमें मलका उतरना, उदरमें हल्कापन, डकारका शुद्ध होना, देहमें किसी प्रकारकी व्यथाका न होना और चित्तमें प्रसन्नताका होना ये, लोहपरि-पाकके लक्षण जानने ॥ ३०३ ॥

कृमिरिपुचूर्णं लीढं सहितं स्वरसेन
वङ्गसेनस्य । क्षपयत्यचिरान्नियतं
लोहाजीर्णोद्भवं शूलम् ॥ ३०४ ॥ कु-
र्यात्कनकबीजैश्च रेचनं किट्टशान्तये ।
भवेद्यद्यतिसारश्च पीत्वा दुग्धन्तु तं
जयेत् ॥ ३०५ ॥ गुञ्जाद्वादशकादूर्ध्वं
वृद्धिरस्य भयप्रदा ।

अगस्तियाके स्वरसमें वायविडगका चूर्ण मिलाकर सेवन करनेसे लोहेके अजीर्णसे उत्पन्न हुआ शूल नष्ट होता है, किट्टके विकारोंको शांत करनेके लिये धतूरेके बीजोंसे विरेचन करावे । लोहेके सेवन करनेसे जो दस्त होनलगे तो दूध पिलाकर उसको जीते । इसको बारह रत्तीसे अधिक सेवन करनेसे भय उत्पन्न होता है ॥ ३०४ ॥ ३०५ ॥


रक्तार्शनिदान ।

रक्तोल्बणा गुदे कीलाः पित्ताकृति-
समन्विताः । वटप्ररोहसदृशा गुञ्जा-
विद्रुमसन्निभाः ॥ ३०६ ॥ तेष्वर्थ
दुष्टमुष्णश्च गाढविट्कप्रपीडिताः ।
स्ववन्ति सहसा रक्तं तस्य चाति-

प्रवृत्तितः ॥ ३०७ ॥ भेकाभः पीड्यते
दुःखैः शोणितक्षयसम्भवैः । हीन-
वर्णवलोत्साहो हतौजाः कलुषेन्द्रियः
॥ ३०८ ॥ विट्श्यावं कठिनं रूक्ष-
मथो वायुर्न वर्तते ॥ ३०९ ॥

रुधिरकी बवासीरमे गुदाके मस्से रुधिरसे भरे हुए पित्तके समान आकृतिवाले, बडके अंकुरोंके समान चोंटली और मूंगेके समान होते है । मल गाढा हो जाय और उस गाढे मलके अत्यन्त कठिनतासे उत्तरनेसे मस्से दबेऔर उनमेसे दुष्ट गरम रुधिर स्रवे अधिक रुधिरके गिरनेसे सम्पूर्ण शरीर भेडरुके समान पीला पड जाय तथा रुधिरके अधिक क्षय होनेसे अत्यन्त कष्टसे पीडित हो वर्ण, बल और व्रसाह हीन हो जाय, पुरुषार्थ नष्ट होजाय, सब इन्द्रिये कलुषित होजाय, मल पिंगलवर्ण, कठिन रूखा और काला हो, अपानवायु न फिरे, ये सब रुधिरकी बवा-सीरके लक्षण जानने ॥ ३०६—३०९ ॥

वाताद्यनुबन्ध ।



तनु चारुणवर्णश्च फेनिलं चासृग्श-
साम् । कट्यूहगुदशूलश्च दौर्बल्यं
यदि चाद्रिकम् । तत्रानुबन्धो वातस्य
हेतुर्यादि च रूक्षणम् ॥ ३१० ॥
शित्थिलं श्वेतपतिश्च विट्स्निग्धं गुरु
शतिलम् । यद्यर्शांघ्नं चासृक्त्तन्तु-
मत्पाण्डुपिच्छिलम् ॥ ३११ ॥ गुदं सपि-
च्छं स्तिमितं गुरु स्निग्धश्च कारणम् ।
श्लेष्मानुबन्धो विज्ञेयस्तत्र रक्तार्शां
बुधैः ॥ ३१२ ॥

वातमन्त्रन्वी रुधिरकी बवासीरमे थोडा लालरंगका और झागोयुक्त रुधिर गिरना है तथा कटि, ऊरु और गुदमें शूल तथा दुर्बलता अधिक होती है इसमे रूक्षता कारण है । कफानुबन्धी रुधिरकी बवासीरमे शित्थिल, सफेद, पीला, चिकना, भारी, शीतल, पाण्डु-वर्ण और पिच्छल रक्त निकले और गुदा भी पिच्छल (नीली) होवे इसमे गुरु और स्निग्ध कारण है ॥ ३१०—३१२ ॥

सामान्य चिकित्सा ।

रक्तार्शसामुपेक्षेत रक्तमादौ स्रवे-
द्विषद् । दुष्टास्त्रे निगृहीते हि शूला-
नाहाद्यसृग्गदाः ॥ ३१३ ॥

रुधिरकी बवासीरमे प्रथम रुधिरको बन्द नहीं करे, किन्तु निकाले । क्योंकि दुष्ट रुधिरको बन्द करनेसे शूल आनाह और रुधिर विकार उत्पन्न होते हैं ॥ ३१३ ॥

चन्दनादि काथ ।

चन्दनकिराततित्तकधन्वयवासाः स-
नागराः कथिताः । रक्तार्शां प्रश-
मना दार्वात्वगुशीरनिम्बाश्च ॥ ३१४ ॥

लालचन्दन, चिरायता, धमासा और सोठ इनका काथ अथवा वारुहल्दी, खस और नीमकी छाल इनका काथ रुधिरकी बवासीरको नष्ट करता है ॥ ३१४ ॥

नवनीतादियोग ।

नवनीततिलाभ्यासात्केसरनवनीत-
शर्कराभ्यासात् । रुधिरसमथिता-
भ्यासाद्गुदजाः शाम्यन्ति रक्तवा-
हाः ॥ ३१५ ॥

नैनी घी और तिलोको मिलाकर अथवा नाग केसर नैनी घी और मिश्री इनको एकत्र मिलाकर दहीकी मलाई और तकके साथ बहुत दिनों तक सेवन करनेसे रुधिरकी बवासीर दूर हो जाती है ॥ ३१५ ॥

कमलकेशरादि ।

सपन्नकेशरक्षौद्रं नवनीतं नवं लिहन् ।
सिताकेसरसंयुक्तं रक्तार्शः स सुखी
भवेत् ॥ ३१६ ॥

कमलकेसर, गहद, ताजा नैनी घी, मिश्री और नागकेसर इन सबको एकत्र करके सेवन करनेसे रुधिरकी बवासीरवाला नीरोग होता है ॥ ३१६ ॥

पेया ।

लाजैः पेया पीता चुक्रिका केशरो-
त्पलैः सिद्धा । हन्त्याशु रक्तरोगं
तथा बलापृष्टपर्णीभ्याम् ॥ ३१७ ॥

चूका, नागकेशर और कमल इनके द्वारा खिलोकी पेया बनाकर पीवे तथा खिरैटी और पिठवनके काथ के द्वारा पेया बनाकर पीवे तो रुधिरकी ववासीर नष्ट हांती है ॥ ३१७ ॥

**पयसा श्रुतेन यूषैः सतीनमुद्गाढकी-
मसूराणाम् । भोजनमद्यादम्लैः शा-
लिश्यामाककोद्रवाणाम् ॥ ३१८ ॥**

मटर, मूँग, अरहर और मसूर इनके चूषकं साथ शालिचावल और कोदो इनका भोजन खटाईके साथ मिलाकर खाय ॥ ३१८ ॥

**शशहरिणश्यावमांसैः कपिञ्जलैः पे-
यकैः सुसिद्धैश्च । भोजनमद्यादम्लै
मधुरैरीषत्सुमधुरैर्वा ॥ ३१९ ॥**

खरगोश, काला हिरन और कपिजल इनके मासकी पेया बनाकर खट्टे भोजनके साथ या मधुर भोजनके साथ अथवा किचिन् मधुर भोजनके साथ सेवन करे ॥ ३१९ ॥

**ज्योत्स्निकाबीजकल्केन लेपो रक्ता-
र्शसां हितः । तद्वद्ब्रह्मचोषरजोयुक्तं
नवनीतं प्रलेपयेत् ॥ ३२० ॥**

कडवी तोरईके बीजको पीसकर लेप करनेसे धवा सीर नष्ट होती है, तथा त्रिकुटेका चूर्ण नैनी धीमे मिलाकर लेप करनेसे रुधिरकी ववासीर नष्ट हांती है ॥ ३२० ॥

**समङ्गोत्पलमोचाहतिरीटतिलचन्द-
नैः । छागक्षीरं प्रयोक्तव्यं गुदजे शो-
णितात्मके ॥ ३२१ ॥**

मजीठ, कमल, मोचरस, लोव और चन्दन इनको बकरिके दूधमें औटाकर पान करनेसे रुधिरकी ववासीर नष्ट होती है ॥ ३२१ ॥

**सातिविषा कुटजत्वक्फलञ्च रसाञ्ज-
नञ्च मधुयुतानि । रक्तापहानि दद्या-
त्पिपासवे तंडुलजलेन ॥ ३२२ ॥**

अर्जिस, कुडेकी छाल, इन्द्रजौ और रसौत इनके चूर्णका गहदमे मिलाकर चावलोंके जलके साथ पान करनेसे रुधिरकी ववासीर दूर होती है ॥ ३२२ ॥

**यवानीन्द्रयवं पाठा बिल्वं शुण्ठी
रसाञ्जनम् । चूर्णं शूले हितं पेयं प्रवृद्धे
वातशोणिते ॥ ३२३ ॥**

अजवायन, इन्द्रजौ, पाठ, बेलगिरी, सोठ और रसौत इनका चूर्ण जलके साथ पीवे तो शूल और वातरक्तकी ववासीर दूर होती है ॥ ३२३ ॥

कुटजादि घृत ।

**कुटजफलवल्ककेशरनीलोत्पललोध्र-
धातकीकल्कैः । सिद्धं घृतं विधेयं
शूले रक्तार्शसां भिषजा ॥ ३२४ ॥**

इन्द्रजौ, कुडेकी छाल, नागकेशर, नीले कमल, लोव और धायके फूल इनके कल्कके द्वारा घृतको सिद्ध करके सेवन करनेसे शूलयुक्त रुधिरकी ववासीर नष्ट होती है ॥ ३२४ ॥

अवाक्पुष्पीघृत ।

अवाक्पुष्पी बला दावीं पृष्ठपर्णी त्रि-
कण्टकम् । न्यग्रोधोद्बुम्बराश्वत्थशुङ्गा-
श्च द्विपलोन्मिताः ॥ ३२५ ॥ कषाय
एषां पेण्यास्तु जीवन्ती कटुरोहिणी ।
पिप्पली पिप्पलीमूलं मरिचं देवदारु
च ॥ ३२६ ॥ कलिङ्गं शालमलीपुष्पं
वीरा चन्दनकुंकुमम् । कट्फलं चित्र-
कं मुस्तं प्रियंग्वतिविषे स्थिरा ॥ ३२७ ॥
पद्मोत्पलानां किञ्जलकं समङ्गा स नि-
दिग्धिका । बिल्वं मोचरसं पाठा भागाः
स्युः कार्षिकाः पृथक् ॥ ३२८ ॥ च-
तुष्प्रस्थं घृतप्रस्थे कषायमुपकल्पयेत् ।
त्रिंशत्पलानि तु प्रस्थो विज्ञेयो द्वि-
पलाधिकः ॥ ३२९ ॥ सुनिषण्णकचा-
ङ्गेय्याः प्रस्थौ द्वौ स्वरसस्य च । स-
र्वैरैर्यथोद्विष्टैर्वृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥
३३० ॥ एतदर्शः स्वतीसारै त्रिदोषै
रुधिरच्युतौ । प्रवाहणे गुदञ्चशे पि-
च्छासु विविधासु च ॥ ३३१ ॥ उत्था-

ने चातिबहुशः शोथे शूले गुदाश्रितं ।
मूत्रग्रहे मूढवाते मन्दाग्रावरुचावपि
॥ ३३२ ॥ प्रयोज्यं विधिवत्सर्पिर्वल-
वर्णाश्रिवर्द्धनम् । विविधेष्वन्नपानेषु
केवलं वा निरत्ययम् ॥ ३३३ ॥ द्र-
व्याण्यष्टाविहावाप्य जलपौडशकं
कथेत । निःक्वाथ्य प्रस्थशेषन्तु गृही-
यात्प्रसृतं भिषक ॥ ३३४ ॥

अध.पुष्पी अथवा सौफ, तिरिंटी, दारुहल्दी, पिठ-
वन, गोरख, वड, गूलर और पीपलके अंकुर ये प्र-
त्येक दो दो पल लेकर चार प्रस्थ जलमें पकावे जब
एक प्रस्थ जल शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे।
फिर जीवन्नी, कुटकी, पीपल, पीपलामूल, कालीमिरच
देवदारु, इन्द्रजौ, सेमलके फूल, कपूरकाचरी, चन्दन
केशर, कायफल, चीता, नागरमोथा, फूलभ्रियंगु, अ-
तीस, शालपर्णी, कमल और क्रमोदनीकी केशर, प्रजी-
ठ, कटेरी, बेलगिरी, सांकरस और पाठ ये प्रत्येक एक
एक कर्ष लेकर कल्क बनावे। भी एक प्रस्थ (यहा बत्तीस
पलका एक प्रस्थ जानना), गिरिआरी और चागेरी-
का स्वरस प्रत्येक दो दो प्रस्थ लेवे, सबको यथावि-
धि मिलाकर घृतको सिद्ध करे। यह घृत बवासीर
अतीसार, त्रिदोषके रुधिरस्त्राव, प्रवाहिका, गुदभ्रग,
अनेक प्रकारके पिच्छलस्त्राव, गुदाके अत्यन्त उठे हुए
मस्से सूजन, गुदाका शूल, मूत्रग्रह, मूढवात, मंदाग्नि
और अरुचि इन सब रोगोमें विधिपूर्वक प्रयोग करना
चाहिये। यह बल, वर्ण और अग्निको बढानेवाला है
और अन्य प्रकारके अन्न पानीके साथ अथवा डकले
घृतको सेवन करना चाहिये। उसमें आठो औषधि-
योको सोलह गुने जलमें पकाकर एक प्रस्थ शेष करना
चाहिये ३३५॥ ३३४ ॥

महाचांगिरीघृत ।

न्यप्रोधेदुम्बराश्वत्थवद्रीप्लक्ष्वेतसाः।
पृथ्थः प्रवालांस्तरुणांस्त्रिपलांश्च समा-
हरेत् ॥ ३३५ ॥ अवाक्पुष्प्याः
पलान्यष्टौ द्वौ च दाव्यांस्तथैव च ।
शालपर्ण्याः पले द्वे तु सर्वमेतत्समा-
वपेत ॥ ३३६ ॥ द्वे पले कालशाकस्य

सर्वमेतत्समावपेत । द्विद्रोणे सलिले
साध्यमष्टभागावशेषितम् ॥ ३३७ ॥
घृतस्यार्धाढकश्च स्यान्मकपायं मु-
ग्धाग्निना । कुचांगेर्याम्लिकाभ्याश्च
स्वरसः खंहसम्मितः ॥ ३३८ ॥ देवदारु
च मुस्तश्च चित्रकं चिन्वंपशिका । क-
टुफलं शृङ्गवेरश्च पिप्पली चन्दनं त-
था ॥ ३३९ ॥ सौवेरमञ्जनं मूलं पि-
प्पल्याः कटुरोहिणी । गन्धप्रियंगुपु-
ष्पश्च शालमली जीविकाह्वया ॥ ३४० ॥
वत्सकस्य च बीजानि तथा चानि-
विषाभया । एषामक्षसमा भागाः पृ-
थग्दत्त्वा विपाचयेत् ॥ ३४१ ॥ वात-
गुल्ममतीसारं शूलं ज्वरमरोचकम् ।
स्त्रीणामसृग्दरं सर्वं रक्तपित्तप्रवाहि-
काम् ॥ ३४२ ॥ पांडुरोगं तथा कासं
कृमिदोषांश्च नाशयेत् । छर्दिं माक्षि-
कसंयुक्तं शमयेद्दीपनं परम् ॥ ३४३ ॥
गर्भाधानश्च वन्ध्यानां, करोत्यशोनि-
वारणम् । चाङ्गेरीघृतमित्युक्तं ख्या-
तमशोनिवारणम् ॥ ३४४ ॥ बलमां-
सकरश्चैतद्रक्तगुल्महर तथा । अर्श-
सां पित्तजातानां हितं तद्रक्तजेष्व-
पि ॥ ३४५ ॥ सन्निपातसमुत्थेषु सर्व-
तो भिषजः क्रमः ॥

वड, गूलर, पीपल वृक्ष वेगी, पाखर और वेत
इन प्रत्येकके कोमल पत्ते तीन २ पल, अधःपुष्पी
(अवाहुली) ८ पल, दारुहल्दी ८ पल, शालपर्णी
८ तोले और कालशाक (नाडीका शाक) ८ तोले लेवे।
सबको एकत्र दो द्रोण जलमें पकावे। जब आठवाँ भाग
जल शेष रहजाय तब उतार लेवे, फिर उसमें घी अर्ध
आढक, चूकेका स्वरस अर्धआढक, देवदारु, नागरमोथा,
चीता, बेलगिरी, कायफल, अदरख, पीपल, चन्दन,
कालासुरमा, पीपलामूल, पीपल, कुटकी, गन्धप्रियं-
गुके फूल, सेमल, जीवक, इन्द्रजौ, अतीस और हरड़ इन

प्रत्येकका कल्क एक २ तोला डालकर यथाविधि धीरे २मंदमंद अग्निद्वारा पकावे । यह घृत-वातगुल्म, अती-सार, शूल, ज्वर, अरुचि, स्त्रियोंके प्रदररोग, रक्त-पित्त, प्रवाहिका, पाण्डुरोग, खांसी, कृमिदोष और वमनको दूर करता है । तथा गहदके साथ अम्रिको दीपन करता है, एव वन्ध्यास्त्रियोंके गर्भको उत्पन्न करता है, ववासीरको नष्ट करता है यह चांगीरीघृत-ववासीरके हरनेमें प्रसिद्ध है । वल और मासको करता है, रक्तगुल्मको हरनेवाला तथा पित्त और रुधिरमें उत्पन्न हुई ववासीर, सन्निपातकी ववासीर और सब प्रकारकी ववासीरोंमें हिनकारी है ॥ ३३५-३४५ ॥

कुटजरसक्रिया ।

कुटजत्वचो विपाच्यं पलशतमर्धं महेन्द्रसलिलेन । यावत्सान्द्ररसं तद्व्यं स्वरसस्ततो ग्राह्यः ॥ ३४६ ॥ मोचरसः ससमङ्गा फालिनी च पलांशकैस्त्रिभिस्तैश्च । वत्सकबीजं तुल्यं चूर्णीकृतमत्र दातव्यम् ॥ ३४७ ॥ पूतः कथितः सान्द्रः स्वरसो दावीप्रलेपनो ग्राह्यः । मात्राकालोपहिता रसक्रियैषा जयत्यसृक्स्त्रावम् ॥ ३४८ ॥ छागक्षीरप्रयुक्तापेया मण्डेन वा यथाग्निबलम् । जीर्णोषधस्तु शालीन्पयसा छागेन भुञ्जीत ॥ ३४९ ॥ रक्तगुदजातीसारं सासृद्युजो निहन्त्याशु । बलवच्च रक्तपित्तं रसक्रियैषा ह्युभयमार्गम् ॥ ३५० ॥ अत्राष्टभागावशिष्टा कर्तव्या काथकल्पना ॥ ३५१ ॥

कुडकी गीली छाल २०० तोले लेकर मेहके पानीमें पकावे । जब पकते २गाढा होजाय तब छानकर रसको ग्रहण करे फिर उस रसमें मोचरस, लज्जावंती और मूलप्रियंगू ये प्रत्येक चार २ तोले, तथा सबके वरावर इन्द्रजौका चूर्ण डालकर पकावे जब पकते २गाढा होकर करछीसे लगने लगे तब उतार लेवे । समयको विचारकर मात्राका निरूपण करे यह रसक्रिया रुधिरके सावको बढ करती है । इसको बकरीके दूधके

साथ अथवा मांडके साथ अग्निका बलाबल विचार कर सेवन करे । जब यह औषधि जीर्ण हो जाय तब बकरीके दूधके साथ शालि चावलोका भोजन करे । यह कुटजरसक्रिया रुधिरकी बवासीर, रुधिरका अतीसार, सब प्रकारके रुधिरविकार और बलवान् दोनों प्रकारके रक्तपित्तको नष्ट करनेवाली है । यहाँ काथकी कल्पना अष्टावग्रेष करनी चाहिये ॥ ३४६-३५१ ॥

कुटजलेह ।

कुटजत्वक्पलशानं जलद्रोणे विपाचयेत् । अष्टभागावशिष्टन्तु कषायमवतारयेत् ॥ ३५२ ॥ वस्त्रपूतं ततः काथं पचेत्लेहत्वमागतम् । मुस्तं मोचरसं लोथं कपित्थफलधातकी ॥ ३५३ ॥ भल्लातकं विडङ्गानि त्रिकटु त्रिफलां तथा । रसाञ्जनं चित्रकञ्च कुटजस्य फलानि च ॥ ३५४ ॥ वचामतिविषां विल्वं प्रत्येकन्तु पलं पलम् । त्रिंशत्पलं गुडस्याथ चूर्णीकृत्य निधापयेत् ॥ ३५५ ॥ मधुनः कुडवं दद्याद्घृतस्य कुडवं तथा । एष लेहः शमयति चाशो रक्तसमुद्भवम् ॥ ३५६ ॥ वातिकं पैत्तिकञ्चैव श्लैष्मिकं सान्निपातिकम् । ये च दुर्नामजा रोगास्तान्सर्वान्नाशयत्यपि ॥ ३५७ ॥ अम्लपित्तमतीसारं पाण्डुरोगमरोचकम् । ग्रहणीमार्दवं कार्श्यं श्वश्रुं कामलामपि ॥ ३५८ ॥ अनुपानं घृतं दद्यान्मधुतक्रं जलं पयः । यथा सात्म्यं निषेवेत पानाहारविचक्षणः ॥ ३५९ ॥ रोगानीकवधार्थाय कौटजो लेह उच्यते ॥

कुडकी गीली छाल १०० पल लेकर एक द्रोणजलमें पकावे । जब आठवाँ भाग जल शेष रहजाय तब उतार कर कपडेसे छान लेवे फिर उसमें नागरमोथा, मोचरस, लोथ, कैथका गूदा, धायके फूल, भिलावे, वायविडंग, त्रिकुटा, त्रिफलां, रसौत, चीता, इन्द्रजौ, वच, अतीस और बेलगीर इन प्रत्येकका चूर्ण चार तोले और गुड ३० पल डालकर पकावे । जब पकते २

गाढा होकर करछीसे चिपकने लगे तब उतार लेवे, शीतल होनेपर शहद एक कुडव और घी एक कुडव परिमाण मिलोदेवे । यह अवलेह-रुधिरसे उत्पन्न हुई बवासीरको नष्ट करनेवाला तथा वातज, पित्तज, श्लेष्मिक, रात्रिपातिक और सब प्रकारकी बवासीरको नष्ट करता है । अम्लपित्त, अतीसार, पाण्डुरोग अरुचि, संग्रहणी, मृदुता, कृशता, सृजन और कामलादिरोगोको यह कुटज अवलेह निश्चय दूर करता है । अनुपान-घृत, तक्र, मधु, जल और दूध है । इसपर अपने स्वभावके अनुसार भोजन करे । यह कुटजावलेह रोगमात्रको नष्ट करनेके लिये कहा है ३५९

चित्रकादिभल्लातकावलेह ।

चित्रकं त्रिफला मुस्तं ग्रन्थिकञ्चविकामृता । हस्तिपिप्पल्यपामार्गदण्डोत्पलकुठेरकाः ॥ ३६० ॥ एषां चतुष्पलान्भागाञ्जलद्रोणे विपाचयेत् । भल्लातकसहस्रे द्वे छित्त्वा तत्रैव दापयेत् ॥ ३६१ ॥ तेन पादावशेषेण लोहपात्रे पचेद्विषक् । तुलार्धं तीक्ष्णलोहस्य घृतस्य कुडवद्वयम् ॥ ३६२ ॥ त्र्यूषणं त्रिफलावह्निसैन्धवं विडमौद्रिदम् । सौवर्चलं विडङ्गानि पलिकांशानि कल्पयेत् ॥ ३६३ ॥ कुडवं वृद्धदारस्य तालमूल्यास्तथैव च । सूरणस्य पलान्यष्टौ चूर्णं कृत्वा विनिक्षिपेत् ॥ ३६४ ॥ सिद्धशीति प्रदातव्यं मधुनः कुडवद्वयम् । प्रातर्भोजनकाले वा ततः खादेद्यथाबलम् ॥ ३६५ ॥ अर्शासि संग्रहणीरोगं पाण्डुरोगमरोचकम् । कृमिगुल्माश्मरीमेहशूलांश्चाशु व्यपोहति ॥ ३६६ ॥ करोति शुक्रोपचयं वलीपलितनाशनम् । रसायनमिदं श्रेष्ठं सर्वरोगहरं परम् ॥ ३६७ ॥

चीता, त्रिफला, नागरमोथा, गठिवन अथवा पीपलामूल, चव्य, गिलोय, गजपीपल चिरचिटा, दडोत्पल, (एक प्रकारकी सहदेवी) और तुलसी प्रत्येक सोलह

२ तोले और छिते हुए भिलावे २००० दोहजार लेकर एक द्रोण जलमें पकावे । जब पकते २ चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे । फिर उस काथमें उन्हीं सीजे हुए भिलावोको छीलकर डाल देवे । तीक्ष्ण लोहेकी भस्म ५० पल, घी दो कुडव, त्रिकुटा, त्रिफला, चीता सेधानमक, विरिया, सचरनमक, खारी नमक, काला नमक और वायविडंग इन प्रत्येकका चूर्ण चार२ तोले, विधारेका चूर्ण एक कुडव, मुसलीका चूर्ण एक कुडव और जिमोकन्दका चूर्ण ३२ तोले डाल कर पकावे जब अवलेह सिद्धहोकर शीतल होजाय तब उसमें दो कुडव परिमाण शहद मिलावे । इसको बलानुसार प्रातःकाल अथवा भोजनके साथ भक्षण करे । यह सब प्रकारकी बवासीर, संग्रहणी, पाण्डुरोग, अरुचि, कृमि, गुल्म, अश्मरी, प्रमेह और शूलको तत्काल नष्ट करता है । शुक्रको संचित करता और वलीपलितरोगका नाश करताहै यह उत्तम रसायन सर्व रोगोको हरनेवाली है ॥ ३६०-३६७ ॥

असात्म्यतामेवमेषां दाहादिक्रम इष्यते ॥ ३६८ ॥

जिनको ये अवलेहादि औषधिये माफिक नहीं हो उनके लिये दाहादि कर्म कहते है ॥ ३६८ ॥

सूत्रबन्धन ।

भावितं रजनीचूर्णं स्तुहीक्षीरैः पुनः पुनः । बन्धनात्सुदृढं सूत्रं छिनत्यशौ भगन्दरम् ॥ ३६९ ॥

हल्दीके चूर्णको वारंवार शूहरके दूधमें भावना देकर सूतसे लपेटकर उस सूतको खूब खींचकर बांधनेसे बवासीरके मससे और भगन्दरनष्ट होता है ३६९

क्षारसूत्र ।

स्तुहीकाण्डगते क्षीरे भल्लातकसमन्विते । ज्योतिष्मत्रिफलादन्तीकोशातक्यत्रिसैन्धवैः ॥ ३७० ॥ चूर्णैरेतैः समघृतैः बन्धयेत्सूत्रकं दृढम् । सूत्रं तत्पातयेदर्शः छिन्नमूल इव दुमः ॥ ३७१ ॥

बृहका दूध, भिलावे, मालकांगुनी, त्रिफला, दन्ती, तोरई, चीना और सैधानसक इन सबको एकत्र पीसकर धीमे मिलाकर मूतपर लेप करके उस सतको मस्तेपर खींचकर बांधनेसे बवासीरके मस्ते गलकर गिर जाते हैं जिस प्रकार जड़के कटनेसे वृक्ष गिरजाता है ॥ ३७० ॥ ४७१ ॥

कालपुष्पादिक्षार ।

श्वेतपुष्पः कालपुष्पो रक्तपुष्पस्तथैव च । पीतपुष्पो वरस्तेषु कालपुष्पः प्रकीर्तितः ॥ ३७२ ॥ प्रशस्तेऽहनि नक्षत्रे कृतमङ्गलपूर्वकम् । कालपुष्पकमाहत्य दग्ध्वा भस्म समाहरेत् ॥ ३७३ ॥ आढकन्तु समादाय जलद्रोणे विपाचयेत् । चतुर्भागावशिष्टेन वस्त्रपृतेन वारिणा ॥ ३७४ ॥ शङ्खचूर्णस्य कुडवं प्रक्षिप्य विपचेत्पुनः । शनैः शनैर्मृदावग्नौ यावत्सान्द्रतनुर्भवेत् ॥ ३७५ ॥ स्वर्जिकायावशूके च शुण्ठी मरिचिप्पली । वचाचातिविषा चैव हिङ्गुचित्रकयोस्तथा ॥ ३७६ ॥ एषां चूर्णानि निक्षिप्य पृथगेवाष्टमाषकम् । दर्व्या संघट्टितञ्चैव स्थापयेदायसे घटे ॥ ३७७ ॥ एष वह्निसमः क्षारः कीर्तितः काश्यपादिभिः । नातितीक्ष्णो न च मृदुः शिवः शीघ्रं सपिच्छलः । शुक्लः श्लक्ष्णोऽत्यभिष्यन्दी क्षारस्याष्टाविमे गुणाः ॥ ३७८ ॥

सफेदफूलका, कालेफूलका, लालफूलका और पीले फूलका इन भेदोंसे घंटापाढल चार प्रकारका होता है। इनमें काले फूलका उत्तम होता है, उत्तम नक्षत्र और शुभ दिनमें मंगल कार्य करके कालेफूलके घंटापाढल वृक्षको लेकर अग्निमें जलाकर भस्म कर लेवे। फिर उस भस्मको एक आढक परिमाण लेकर एक द्रोण जलमें पकावे। जब चौथा भाग जल शेष रह जाय तब उतारकर घसमें छान लेवे। पश्चात् उसमें एक कुडव परिमाण अंशकी भस्म मिलाकर धीरे-धीरे पकावे। जब

पकते २ गाढा पड जाय तब सज्जी, जवाखार, सोठ, मिरच, पीपल, वच, अतीस, हींग और चीता इन प्रत्येकका चूर्ण आठ २ मासे मिलाकर खूब करछीसे चलाकर एक लोहेके बासनमें भरकर रख देवे। यह अग्निके समान क्षार काश्यपादि ऋषियोंने कहा है। यह खार—न अत्यन्त तीक्ष्ण है, न मृदु है, शुभ है, शीघ्र गुणकारक, पिच्छल, सफेद, श्लक्ष्ण और अभिष्यन्दी है ॥ ३७२—३७८ ॥

करीषराशिमध्यस्थं कृत्वा कर्मसु योजयेत् । क्षारं क्षारोदकं कोष्णं न्यसेन्मन्दप्रवाहिणीम् ॥ ३७९ ॥ तोये कालकमुष्ककस्य विपचेद्द्रस्माढकं षड्गुणे पात्रे लोहमये दृढे विपुलधीर्दर्व्या शनैर्वदृयेत् ॥ दग्ध्वाग्नौ बहुशंखनाभिशकलान्पूतावशेषे क्षिपेत्तद्येरण्डजनालमेष दहति क्षारो वरो वाक्छतात् ॥ ३८० ॥ पानीयं प्रतिसारिणीयमिति च क्षारो द्विधा शस्यते तत्राद्यो गरगुल्मकादिशमने दुर्नामकादौ परः ॥ ३८१ ॥ पानीयं भावयित्वा तु स्त्रावयेच्च चतुर्गुणे । द्विगुणे षड्गुणे वारि तद्द्वारानेकविंशतिम् ॥ ३८२ ॥ प्रायस्त्रिभागशिष्टेऽस्मिन्नच्छपैच्छिल्यरक्तता । सञ्जायते तदा स्त्राव्यं क्षाराम्भो ग्राह्यमिष्यते ॥ ३८३ ॥ तूर्य्येणाष्टमकेन षोडशगुणेनांशेन संव्यूहिमो मध्यः श्रेष्ठ इति क्रमेण विहितः क्षारोदकः शंखकः ॥ ३८४ ॥

काले मोखकी भस्म एक आढक परिमाण लेकर छः गुने जलमें लोहेके पात्रमें पकावे और धीरे २ लोहेकी करछीसे चलाता जाय और उसमें शंखनाभिकी छनी हुई भस्मको मिला देवे। जितनी देर सौवार गिननेसे लगे उतनी देरमें यह क्षार अडकी नालका जला देवे तो उत्तम क्षार हुआ जानना। यह क्षार पानीय और प्रतिसारणीय इन भेदोंसे दो प्रकारका है। उसमें पहला पानीयक्षार विषविकार और गुल्मादि

रोगोंको शमन करनेमें उत्तम है और दूसरा प्रतिसारणीय क्षार बचासीर आदि रोगोंको नष्ट करनेके लिये उत्तम कहा है। पानीगरूप जो क्षार है उसको टुगुने या चोगुने जलमें अथवा लुगुने जलमें भिजोकर दफीसवार टपकावे। प्रायः तीनभाग शेष रहनेपर इस क्षारमें पिच्छलता और रक्तता उत्पन्न हो तो उसको टपका कर क्षारजल ग्रहण करना चाहिए। चारगुने आठगुने अथवा सोलहगुने जलमें बनाया हुआ और शंखका चूर्ण जिसमें पटा हो पेमा क्षार जल क्रममें संव्यूहिम, मध्यम और श्रेष्ठ कहा जाता है ॥ ३७९—३८४ ॥

अभयारिष्ट ।

हरीतकीनां प्रस्थार्धं प्रस्थमामलकस्य च । कपित्थानां दशपलं तदर्धा चेन्द्रवारुणी ॥ ३८५ ॥ विडङ्गं पिप्पली लोथं मरिचं सैलवालुकम् । द्विपलांशं जलस्येतच्चतुर्द्रोणे विपाचयेत् ॥ ३८६ ॥ द्रोणशेषे रसे तस्मिन्पूतशेषे प्रदापयेत् । गुडस्य द्विशतं तिष्ठेन्मांसार्धं घृतभाजने ॥ ३८७ ॥ पलादूर्ध्वं भवत्येवं ततो मात्रा यथाबलम् । अस्याभ्यासादरिष्टस्य गुदजायान्ति सङ्क्षयम् ॥ ३८८ ॥ ग्रहणीपाण्डुरोगघ्नः प्लीहगुल्मोदरापहः । कुष्ठशोथारुचिहरो बलवर्णाश्रिवर्द्धनः ॥ ३८९ ॥ सिद्धोयमभयारिष्टः कामलाश्वित्रनाशनः । कृमिप्रन्थर्तुद्वयङ्गराजयक्ष्मज्वरांतकृत् ॥ ३९० ॥ पानमानमरिष्टादेः काथपानसमं जगुः । भिषजत्वात्पलं केचित्प्रथमं मदलक्षणम् ॥ ३९१ ॥

हरड ३२ तोले, आमले ६४ तोले, कैथका गुडा १० पल, इन्द्रायन ५ पल, वायविडंग, पीपल, लोध, कालीमरच और एलुआ ये प्रत्येक औपधि दो दो पल लेपर चार द्रोण जलमें पकावे। जब एक द्रोण जल शेष रह जाय तब उतारकर छान लेवे। फिर उसमें २००

पल गुड डालकर चौके चिहनें चामनमें भर कर पन्द्रह दिनतक गन्ध्या रहने देवे। उसकी चन्दानुसार एक पलमें अधिक मात्राका निरूपण करे। इस अरिष्टके अभ्यासमें गुडाके मर्ममें नष्ट होजाते हैं तथा संपदगाँ, पाण्डुरोग, प्लीहा, गुल्म, उदररोग, कुष्ठ, मज्जन और अरुचि नष्ट होती है। यह बल, वर्ण और अभिज्ञे घटानेवाला है। यह अभयारिष्ट—कामला, श्वित्रकुष्ठ, कृमि, प्रन्थि, अर्शरोग, व्यंग, राजयक्ष्मा और ज्वरको नष्ट करता है। अरिष्टाधिक पीनेकी मात्रा कथ पानके समान जाननी चाहिए २ घण्टा एसा करने हैं कि, इसमें मदके लक्षण होनेसे इसकी एक पलकी मात्रा है ॥ ३८५—३९१ ॥

यन्त्रप्रकार ।

पडंगुलं सकर्णिकं कुर्याद्यन्त्रस्य मण्डलम् । अद्गुष्टोदरविस्तीर्णं छिद्रं स्याद्ङ्गुलायनम् ॥ ३९२ ॥

गुडाके अंकुरोंको पकटनेके लिये, जो यंत्र बनाया जाता है उसकी विधि कहते हैं—उस यंत्रका मण्डल छ. अंगुल प्रमाण और कर्णिकायुक्त बनाना चाहिए। तथा अंगूठेके उदरके समान चौड़ा और उसका छिद्र एक अंगुलका गोल होना चाहिए ॥ ३९२ ॥

पञ्चाङ्गुलं बालकानां वयस्थानां पडङ्गुलम् । अर्शसान्तप्रयोक्तव्यं लुप्तोष्ठन्तु भगन्दरे ॥ ३९३ ॥

यन्त्रं सप्तांगुलं स्त्रीणामायतं चतुरंगुलम् ॥

जो बालकोंके लिये बनाना हो तो पांच अंगुल प्रमाण उसका मण्डल बनाना चाहिये और पूर्ण अवस्थावाले मनुष्यके लिये छः अंगुलका बनाना उचित है। यह यन्त्र अर्शरोगमें प्रयोग करना चाहिये और जिसमें ओष्ठ बन्द हो जाय ऐसे भगन्दर रोगमें भी प्रयोग करना चाहिये ॥ ३९३ ॥

स्त्रियोंके लिये सात अंगुलका यन्त्र बनाना उचित है। और उसकी चौड़ाई चार अंगुल होनी चाहिए।

गुदाविवरण ।

तत्र स्थूलान्प्रतिबद्धमर्धपञ्चाङ्गुलं गुदमाहुः । तस्मिन्बलयस्तिस्त्रोऽध्यूर्ध्वाङ्गुलान्तरसंभूताः । प्रवाहिणी वि-

सर्जनी संवरणी चेति । रोमान्तेभ्यो
यवाध्यर्धो गुदोष्ठः परिकीर्तितः ३९४

स्थूल अंतसे बंधी हुई साठ पाँच अंगुलकी गुदा है उसमें तीन बलि है और वह आधे २ अंगुलके अन्तरसे है । प्रवाहिणी, विसर्जनी और संवरणी ये तीनों बलियोंके नाम हैं । रोमोंके अंतमें आधे जौके समान जो स्थान है उसको गुदोष्ठ कहते हैं ॥ ३९४ ॥

प्रथमा तु गुदोष्ठाद्बुलमात्रा तत्रा-
ऽचिरकालजातान्यल्पदोषलिङ्गोपद्र-
वाणि भेषजसाध्यानि । मृदुप्रसृता-
वगाढान्युच्छ्रिताग्राणि क्षारेण । क-
र्कशस्त्रिरपृथुकठिनान्यग्निना । तनु-
मूलान्युच्छ्रिताग्राणि क्लेद्वन्ति च
शस्त्रेण ॥

पहले गुदोष्ठकी एक अंगुलप्रमाण मात्रा है । जो बवासीर थोड़े दिनोंकी उत्पन्न हुई हो जिसमें अल्प-
दोषोंके लक्षण और उपद्रव हो उसको औषधिसाध्य जानना जो बवासीर मृदु, फैसी हुई, जमी हुई, गाढी और आगसे कुछ ऊंचीसी हो उसको क्षारसाध्य जानना । जिस बवासीरके अंकुर कर्कश, कठिन, मोटे, प्रज्यूत और कठोर हो उसकी अग्निकर्मके द्वारा चिकित्सा करे और जिस बवासीरके अंकुर पतली जडवाले, आगसे उठे हुए और क्लेदयुक्त हो उसकी शस्त्रके द्वारा चिकित्सा करे ॥

क्षारंण वह्निना वापि वातश्लेष्मसमु-
द्भवम् । क्षारेणैव दहेदर्शः पित्तरक्त-
समुद्भवम् ॥ ३९५ ॥

वात और कफजनित अर्शरोगकी क्षार और अग्नि-
के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये, पित्तरक्तसे उत्पन्न हुए अर्शरोगकी केवल क्षारके द्वारा ही चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३९५ ॥

तत्र बलवन्तमातुरमर्शोभिरुपद्रुत-
मुपस्त्रिग्धं परिस्विन्नमनिलवेदनावृ-
द्ध्युपशान्त्यर्थं स्त्रिग्धमुष्णमल्पमन्नं द्र-
वप्रायं भुक्तवन्तमुपवेश्य शुचौ देशे
साधारणे व्यञ्ज काले समे फलके श-
य्यायां वा प्रत्यादित्यगुदमन्यस्यो-

त्सङ्गे निषण्णपूर्वकायमुत्तानं किञ्चि-
दुन्नतकटिकं वस्त्रकम्बलकोपविष्टं य-
न्त्रशाटकेन परिक्षिप्तग्रीवासक्थिकं
परिकर्माभिः सुपरिगृहीतमस्पन्दन-
शरीरं कृत्वा ततोऽस्मिन् पृताभ्यक्तं
यन्त्रमृज्वणुमुखं पायो शनैः शनैः प्र-
वाहमानस्य प्रणिधायप्रविष्टं चार्शो
वीक्ष्य शलाकयोत्पीड्य पिचुवस्त्रयो-
रन्यतरेण प्रमृज्य क्षारं पातयेदिति ॥

अर्शरोगसे पीडित बलवान् रोगीको प्रथम स्त्रिग्ध और स्वेदित कर फिर वायुकी पीडाकी वृद्धिको गमन करनेके लिये चिकना, उष्ण और विशेषकर पतला थोडा अन्न भोजन कराकर उत्तम शुद्ध और समान तथा साधारण ऐसी भूमि या तख्त अथवा शय्यापर सुखपूर्वक लिटादेवे किन्तु उस दिन आकाशमडल वादलोंसे रहित हो । उसकी गुदाको सूर्यके सम्मुख कर उसकी कमरके नीचे वस्त्र अथवा कम्बलकी गद्दी बनाकर रखदेवे जिससे कमर ऊपरको उठजाय। फिर वस्त्रसे उसकी ग्रीवा और हाथ, पाँव आदि अच्छे प्रकारसे बांधदेवे और अन्यपुरुषोंसे उसको अच्छे प्रकारसे पकड़वा देवे जिससे कि, रोगी पी-
डित होनेसे डधर डधर अंगोंको न पटके । पश्चात् उसकी गुदामें घी चुपटकर सीधे ओर छोटे मुखवाले यंत्रको गनै. २ प्रवेश करे। फिर यंत्रके भीतर घुसजा-
नेपर अर्शको देखे और सलाईसे दबावे फिर फोये या वस्त्रसे पोछ हर क्षारको डाले ॥

पद्मपत्रसमः पित्ते क्षारलेपः प्रशस्य-
ते । हेमन्ते ह्युद्गते सूर्ये वसन्तेऽस्तगते
मतः ॥ २९६ ॥

पित्तकी बवासीरमें कमलके पत्तेके समान क्षारका लेप करना चाहिए । हेमन्तऋतुमें सूर्यके उदय होने पर और वसन्तऋतुमें सूर्यके अस्त होनेपर क्षार कर्म करना चाहिये ॥ ३९६ ॥

पातयित्वा च पाणिना यन्त्रद्वारं
पिधाय वाक्छतमात्रमुपेक्षेत ततः प्र-
मृज्य क्षारव्याधिवलं चावेक्ष्य पुनः
पातयेत् । अथार्शः पक्कजाम्बवसंका-

शमभिवीक्ष्यावसन्नभीषत्रतमुपावर्त-
येत । क्षारं प्रक्षालयेद्धान्याम्लद्रुधिम-
स्तुशुक्तानामन्यतमेन ततो यष्टिमधु-
कमिश्रितसर्पिषा निर्वाप्य यन्त्रमप-
नीयोत्याप्यातुरमुष्णोदककोष्ठेऽवगा-
ह्य शीताभिरद्भिः परिषिञ्चेत् । अशी-
ताभिरित्येके ततो निर्वातमगारं
प्रवेश्याऽऽचारिकमादिशेत् ॥

क्षारको डालनेके पश्चात् हाथमे यत्रद्वारको ढककर
सां मात्राके उच्चारण समयतक ढका रहने देवे । फिर
वस्त्रादिसे माफ करके क्षार और रोगके बलको विचार
कर फिर डाले जब इस प्रकार क्षार डालनेसे अर्शके
अंकुर पकी जायुनके समान और कुछ नीचे हो जाँय
तब छोड देवे पश्चात् क्षारको धानेकी काँजी या
दहीके तोड अथवा सूक्तनामक काँजीसे धोडाले । फिर
मुलैठीको पीसकर घीमे मिलाकर लगादेवे और यंत्र-
का निकाल देवे । तथा रोगीको उठा करके गरम जलमे
बैठाकर जीतल जलमे सींचे । कोई आचार्य कहते है
कि, गरमजलसे सींचे । फिर उसको वातरहित स्थान-
में प्रवेश कराकर अर्शसम्बन्धी आचरण करावे ॥

युञ्ज्यात्पाकाय लघ्वन्नं माषतक्रस-
मन्वितम् । अथ चेत्स्थिरमूलत्वात्क्षार-
रुग्धं न शीर्यते ॥ इदमालेपनं तत्र
समग्रमवचारयेत् ॥

उडक और तक्रसहित हलका अन्न अर्शरोगीका
भोजनके लिये देवे । जो ववासीरके अंकुर स्थिरमूल-
वाले होनेके कारण क्षारसे दग्ध करनेपर न गले तो
नीचे लिखे यह सब योग प्रयोग करे ॥

अम्लीकाधिकवीजानि तिलान् मधु-
कमेव च । सर्पिषा सममात्राणि तथै-
वमनुलेपयेत् ॥ ३९७ ॥

उम्ली, चौंढली, तिल और मुलैठी इन सबको
समान भाग लेकर एकत्र पीसकर घीमे मिलाकर
लेप करे ॥ ३९७ ॥

तिलकल्कः समधुको वृताक्तो व्रण-
रोपणः । सावशेषं पुनर्दाहैश्चैकैकं स-
मुपक्रमेत् ॥ ३९८ ॥ प्राग्दक्षिणं ततो

वामं ततः पृष्ठाग्रजं पुनः । ज्वलनेनाथ
सन्दग्धः पक्कजंबुफलोपमः ॥ ३९९ ॥
तत्र लेपं प्रयुञ्जीत पथ्याम्लक्षारचन्द-
नैः । दाहे वस्त्यादिजे लेपः शतधौ-
तेन सर्पिषा ॥ ४०० ॥

तिलकं कल्कको मुलैठीके चूर्ण मन्दिन घीमे
मिलाकर लगावे नो वह व्रणको रोपण करता है ।
जो गुदाके अंकुर जलानेपर भी फिर वाकी
रहजायें तब फिर एक एकको क्रम क्रमसे
जलावे । प्रथम दहनी ओरके अंकुरोको दग्ध करे
फिर बाई ओरके अंकुरोको जलावे फिर पीठके
और आगेके अंकुरोको जलावे । गुदाके अंकुर जलने
पर पक्क जायुनके समान हो जाते है । फिर हरड,
काजी, क्षार और चन्दन इनको पीसकर लेप कराना
चाहिये । जो क्षारकर्म करनेसे और जलानेसे गुदाके
अंकुरोमे दाह उत्पन्न हो तो सौ बार धुलेहुए घीका
वस्तिआदि स्थानपर लेप करे ॥ ३९८ ॥ ३९९ ॥ ४०० ॥

विषदेवाहसुरसाशुडकुष्ठपुनर्नवैः ।
कल्कैः कृतैरधो नाभेर्लेपयेद्दृष्टि व-
डक्षणम् ॥ ४०१ ॥

कमलकेसर, देवदारु, तुलसी, गुड़, कूठ और पुन-
र्नवा इनका कल्क बनाकर अधोभाग, नाभिस्थान,
वस्तिस्थान और वंक्षणस्थानमे लेपकरना चाहिये ४०१

छायासु शोषितागोविर्द्विपिंडैः सौ-
वीरपाचितैः । स्वैदयेद्दुददेशन्तु दा-
हादिव्लेशशान्तये ॥ ४०२ ॥

गौके गोबरको छायामे सुखाकर उसका पिण्ड
बनाकर सौवीर नामक काँजीमे पकावे फिर दाहादि
हेश गमन करनेके लिये गुदाको स्वेदित करना चा-
हिये ॥ ४०२ ॥

क्षारमुष्णाम्बुनाऽवाप्या विबन्धे मू-
त्रवर्चसे ॥ पिवेद्ब्रणविशुद्धार्थं वरा-
काथं सगुग्गुलुम् ॥ ४०३ ॥

क्षारको गरमजलमे मिलाकर मल और मूत्ररोगमें
पीना चाहिये । व्रणको शुद्ध करनेके लिये त्रिफलेके
काथमे गुग्गुलु डालकर पीना चाहिये ॥ ४०३ ॥

आहारमुद्दिशेच्चापि स्वेदनं वेदनासु
च । जीर्णशाल्यन्नमुद्गादि पथ्यं ति-
क्ताज्यसैन्धवैः ॥ ४०४ ॥

स्वेदकर्म करनेके पश्चात् पीडा होनेपर पुराने शालि-
चावलोका भात, मूँग आदि अन्न, कढवे पदार्थ, घृत
और सैधानमक ये पथ्य द्रव्य देवे ॥ ४०४ ॥

गुदेष्वर्शस्सु सर्वेषु तद्देशे पूर्वजन्मनि ।
जलौकाभिर्हरेच्चासृक्पुनर्जन्मनिवृ-
त्तये ॥ ४०५ ॥

सर्वप्रकारके गुदाके अर्शरोगोमे तत्काल उस स्थान-
का रुधिर निकलवाना चाहिये । कारण कि जिससे
फिर अंकुर उत्पन्न न होजाय ॥ ४०५ ॥

तत्र वातानुलोम्यमन्नरुचिरभिर्दी-
तिलाघवं बलवर्णोत्पत्तिर्मनस्तुष्टिरि-
ति सम्यग्दग्धलिङ्गानि । अतिदग्धं
तु गुदावदरणं दाहो ज्वरः पिपासा
शोणितातिप्रवृत्तिस्तन्निमित्ताश्रोप-
द्रवा भवन्ति । श्यामाल्पव्रणता कण्डू-
रनिलवैगुण्यमिन्द्रियाणामप्रसादो
विकारस्य चाशान्तिर्हीनदग्धे तु ल-
क्षणमिति ।

जिसमे जब अच्छे प्रकार वायुका अनुलोमेन होने
लगे शरीरमे हलकापन अन्नके रुचि और अग्नि दीपन
होजाय तथा बल, वर्ण उत्पन्न हो और मन प्रसन्न हो
तो उत्तम प्रकारसे दग्ध होनेके लक्षण जानने। गुदा
विदीर्ण हो जाय, दाह हो, ज्वर, तृषा, रुधिरका अत्यंत
निकलना और उसके निकलनेके कारण अनेक
उपद्रव हो तो उसको अतिदग्ध जानना । हीनदग्धके
लक्षण—काले और छोटे २ व्रण उत्पन्न हो, खुजलिका
होना, वायुकी विगुणता, इन्द्रियोसे अप्रसन्नता और
विकारोका शमन नहीं होता ये सब लक्षण हो तो
उसको हानिदग्ध जानना ।

कपित्थाद्यघृत ।

स्वरसे तु कपित्थाम्लदाडिमांमल-
कोद्भवे । द्विप्रस्थे सर्पिषः प्रस्थं पचे-
त्क्षारार्त्तिदाहनुत् ॥ ४०६ ॥

कैथ, डमली और आमले इनके दो प्रस्थ स्वरसमे
एक प्रस्थ घी डालकर मंद मंद अग्निसे पकावे ।

इस घृतको सेवन करनेसे क्षार आदिके प्रयोग करनेसे
उत्पन्न हुई पीडा और दाह दूर होती है ॥ ४०६ ॥

रूढं सर्वव्रणं वैद्यः क्षारं दत्त्वानुवास-
येत् । पिप्पल्याद्येन तैलेन सेवेदीप-
नभेषजम् ॥ ४०७ ॥

वैद्य सब प्रकारके उत्पन्न व्रणोको क्षारप्रयोग करके
अनुवासन करे । तथा पिप्पल्याद्य तैलके साथ दीपन
औपधियोको सेवन करे ॥ ४०७ ॥

मेढ्रादिष्वपि जायन्ते यथा स्वप्ना-
भिजानि तु । गण्डूपदस्य रूपाणि
पिच्छलानि मृदूनि च ॥ ४०८ ॥

लिंग, नाभि और नासिकादि स्थानोमेभी कैचुयेके
समान पिच्छल और नरम ऐसे अर्शके अंकुर
उत्पन्न होते हैं ॥ ४०८ ॥

नाभिकर्णाक्षिनासासु जातेष्वर्शः-
सु योजयेत् । लेपं तैलश्च पूर्वोक्तं घ्रा-
णजे शस्त्रकर्म च ॥ ४०९ ॥

नाभि, कान, नेत्र और नासिकामे उत्पन्न हुई
ववासीरमे उपरोक्त लेप और तैलादिको प्रयोग करे
और नासिकागत अर्शरोगमे शस्त्रकर्म भी प्रयोग
करे ॥ ४०९ ॥

प्रतिसारणेन च सैन्धवनिशायुगां-
गारधूमकाशीशलवणप्रलेपानि ना-
सामेहनगुदजानि शमयन्तीति ॥

सैधानमक, हल्दी, दारुहल्दी, घरका धुआ, कसीस
और नमक इनका प्रतिसारणविधिद्वारा लेप करनेमे
नासिका और लिंगगत अर्शरोग नष्ट होता है ॥

प्रतिसारणमात्रा ।

प्रतिसारणमुद्दिष्टं चूर्णं कल्कश्च तत्रि-
धा । कोलास्थिमात्रपिंडेन घर्मेण
नव सप्त षट् ॥ ४१० ॥ श्रेष्ठमध्यम-
हीनेषु कवलोक्तं च लक्षणम् ॥

चूर्ण, कल्क और घेरकी गुठलीके बराबर पिंड
इसप्रकार प्रतिसारण तीन प्रकारका होता है। इनकी
नी, सात और छः ये तीनों श्रेष्ठ, मध्य और हीन
मात्रा हैं । इनको धूपमे करे । कवलके समान इनके
लक्षण जानने ॥ ४१० ॥

नासाजार्शःसु कुर्वीत क्षारेण प्रतिसारणम् । नासास्रोतःप्रमाणेन यन्त्रं सौवर्णराजतम् ॥ ४११ ॥ अङ्गुलं कर्णकोपेतमर्धाङ्गुलमथायतम् । उत्तानशायिनः क्षारं दद्यात्पित्तुशलाकया ॥ ४१२ ॥

नासागत अर्शरोगमे क्षारके द्वारा प्रतिसारण करना चाहिये । नासिकाके छिद्रके समान सांने या चांदीका यन्त्र बनवाना चाहिए । उसमें एक २ अङ्गुली कर्णिका लगानी चाहिये । आधे अङ्गुल उसकी चौड़ाई होनी चाहिये । रोगीको चित्त मुलाकर फायकी शलाकासे क्षार डालना चाहिये ॥ ४११ ॥ ४१२ ॥

चर्मकीलक्षण ।

व्यानो गृहीत्वा श्लेष्माणं करोत्यर्शस्त्वचो बहिः । कीलोपमं स्थिररूपं चर्मकीलन्तु तद्विदुः ॥ ३१३ ॥ वातेन तोदपारुष्यं पित्तादसितरक्तता । श्लेष्मणा स्निग्धता तस्य ग्रन्थितत्वं सवर्णता ॥ ४१४ ॥ चर्मकीलं दहेच्छित्वा क्षारेण दहनेन वा ॥ ४१५ ॥

व्यानवायु कफको ग्रहण करके त्वचाके बाहर अर्शको उत्पन्न करता है, वह अर्श कीलके समान कठिन और खर होती है उसको चर्मकील कहते हैं । उस वातजनित चर्मकीलमे सुई चुभाने सरीखी पीडा, और खरखरापन होता है । पित्तजनित चर्मकीलमे कालापन और लाली होती है । और कफजनित अर्शरोगमे स्निग्धता और त्वचाके समान गाँठ होती है । चर्मकीलको क्षार अथवा अम्लके द्वारा जलाकर नष्ट करना चाहिये ॥ ४१३ ॥ ४१४ ॥ ४१५ ॥

साध्यासाध्यता ।

पश्चात्मा मारुतः पित्तं कफो गुद्वलित्रये । सर्व एव प्रकुप्यन्ति गुदजा-

नां समुद्रं व ॥ ४१६ ॥ तर्मादर्शांसि सर्वाणि बहुव्याधिकराणि च । सर्वे द्विहांपतापीनि प्रायः कृच्छ्रतमानि च ॥ ४१७ ॥

गुदाकी तीनवलियोंमें ववासीरके अंकुर उत्पन्न होनेसे पाचों प्रकारका वायु, पांच प्रकारका पित्त और पांच प्रकारका कफ कुपित होता है । उस कारण यह ववासीर रोग अत्यन्त दुःखदायक है और अनेक प्रकारके रोगोंको उत्पन्न करनेवाला और प्रायः कष्टसाध्य है ॥ ४१६ ॥ ४१७ ॥

सुखसाध्यलक्षण ।

बाह्यायान्तु वलौ जातान्येकदोषो-
ल्वणानि च । अर्शांसि सुखसाध्या-
नि न चिरोत्पतितानि च ॥ ४१८ ॥

जो ववासीरके अंकुर बाहरकी वलिमें उत्पन्न हुए हो और ववासीरके एक दोषसे उत्पन्न हुई हो या बहुत दिनोंकी पुरानी न हो ऐसी ववासीर सुखसाध्य जाननी ॥ ४१८ ॥

कष्टसाध्यलक्षण ।

द्वंद्वजानि द्वितीयायां वलौ यान्या-
श्रितानि च । कृच्छ्रसाध्यानि तान्या-
हुः परिसंवत्सराणि च ॥ ४१९ ॥

जो दो दोषोंसे उत्पन्न हुई हो, दूसरी वलीमें उत्पन्न हुई हो और जिसको उत्पन्न हुए एक वर्ष बीत चुका हो ऐसी ववासीर कृच्छ्रसाध्य है ॥ ४१९ ॥

असाध्यलक्षण ।

सहजानि त्रिदोषाणि यानि चाभ्य-
न्तरां वलिम् । जायन्तेऽर्शांसि संश्रि-
त्य तान्यसाध्यानि निर्दिशेत् ॥ ४२० ॥

जो जन्मसे ही उत्पन्न हुई हो, त्रिदोषमें उत्पन्न हुई हो और भीतरकी वलीमें हो। उसको असाध्य जानना ॥ ४२० ॥

याप्यलक्षण ।

शेषत्वादायुषस्तानि चतुष्पादसमन्वि-
ते । याप्यन्ते दीप्तिकायाग्नेः प्रत्या-
ख्येयान्यतोऽन्यथा ॥ ४२१ ॥

यदि बवासीर असाध्य हो पर रोगीकी आयु बा-
की हो तथा चतुष्पाद (वैद्य, परिचारक, औषधि
और रोगी) ठीक हो और रोगीकी क्षमि बर्षन हो
तो याप्य जाननी और जो इससे विपरीत हो तो अ-
साध्य जाननी ॥ ४२१ ॥

हस्ते पादे मुखे नाभ्यां गुदे वृषणयो-
स्तथा । शोथो हृत्पार्श्वशूलश्च यस्या-
साध्योऽर्शसो हि सः ॥ ४२२ ॥

जिस बवासीररोगीके हाथ, पाँव, मुख, नाभि,
गुदा और अङ्कोश इनमें सूजन हो, हृदय तथा
पसलियोंमें शूलकी पीडा हो, उसको असाध्य
जानना ॥ ४२२ ॥

हृत्पार्श्वशूलं संमोहश्छर्दिरङ्गस्य रु-
ग्ध्वरः । तृष्णा गुदस्य पाकश्च निह-
न्युर्गुदजातुरम् ॥ ४२३ ॥

हृदय और पसलियोंमें शूलके समान पीडा हो,
बेहोस हो, वमन, अगोमें पीडा हो, ज्वर, तृषा और
गुदाका पकना इन लक्षणोंवाला बवासीररोगी मर
जाता है ॥ ४२३ ॥

तृष्णारोचकशूलार्तमतिप्रसृतशोणि-
तम् । शोथातीसारसंयुक्तमर्शासि
क्षपयन्ति हि ॥ ४२४ ॥

जो तृषा अरुचि और शूलसे पीडित हो, जिसके
रुधिर अधिक भ्रवे, सूजन और अतीसार हो, ऐसा
बवासीररोगी मर जाता है ॥ ४२४ ॥


वेगावरोधः स्त्री पृष्ठयानमुत्कटका-
सनम् । यथास्त्रं दोषलञ्चान्नमर्शासां
परिवर्जयेत् ॥ ४२५ ॥

मलमूत्रादिके वेगको रोकना, स्त्रीप्रसंग, हाथी
घोड़ेकी सवारी, उकरुवैठना और दोषकारक अन्न.
पानोको सेवन इन सबको बवासीर रोगी त्याग
देवे ॥ ४२५ ॥

इति श्रीवंगसेने अर्जरोगाधिकारः

सपूर्णः ।

अथ अजीर्णनिदान ।



मन्दस्तीक्ष्णोऽथ विषमः समश्चेति
चतुर्विधः । कफपित्तानिलाधिक्या-
त्तत्साम्याज्जाठरोऽनलः ॥ १ ॥ वि-
षमो वातजात्रोगांस्तक्षिणः पित्त-
निमित्तजान् । करोत्यग्निस्तथा म-
न्दो विकारान्कफसम्भवान् ॥ २ ॥

मन्द, तीक्ष्ण, विषम और सम इन भेदोंसे जठ-
राग्नि चारप्रकारकी है । कफकी अधिकतासे
मदाग्नि, पित्तकी अधिकतासे तीक्ष्णाग्नि, वातकी
अधिकतासे विषमाग्नि और तीनों दोषोंके समान हो
नेसे समाग्नि होती है । विषमाग्नि—वातके रोगों
को, तीक्ष्णाग्नि—पित्तके रोगोंको और मदाग्नि
कफके रोगोंको उत्पन्न करती है ॥ १ ॥ २ ॥

समा समाग्नेरशिता मात्रा सम्यग्वि-
पच्यते । स्वल्पापि नैव मन्दाग्नेर्विष-
माग्नेस्तु देहिनः ॥ ३ ॥ कदाचित्प-
च्यते सम्यक्कदाचित्त्र विपच्यते । मा-
त्रातिमात्राप्यशिता सुखं यस्य
विपच्यते ॥ ४ ॥ तीक्ष्णाग्निरिति तं
विद्यात्समाग्निः श्रेष्ठ उच्यते ॥ ५ ॥ स-
माग्निं रक्षयेन्नित्यमन्नपानेधनेर्हितैः ।
मन्दाग्निं कटुतिक्तैश्च कषायवमनेर्हि-
तैः ॥ ६ ॥ तीक्ष्णाग्निं मधुरस्निग्धै-
र्विरेकगुरुशीतलैः । स्नेहाम्ललवणा-
द्यैश्च विषमाग्निमुपाचरेत् ॥ ७ ॥

समाग्निवाले मनुष्यके यथोचित मात्रासे किया
हुआ भोजन अच्छे प्रकारसे पच जाता है,
मन्दाग्निवाले पुरुषके अल्पमात्रामे किया हुआ
भोजन भी नहीं पचता है । विषमाग्नि

वाले मनुष्यको कभी अच्छे प्रकारसे भोजन पच जाता है और कभी नहीं पचता और तीक्ष्णाग्निवाले मनुष्यके भोजनपर भोजन या अधिक किया हुआ भोजन भी अच्छे प्रकारसे पच जाता है। उक्त चारो प्रकारकी अग्निमें समाग्नि श्रेष्ठ है। इस लिए हितकारक अन्न पानरूपी ईधनसे सदैव समाग्निकी रक्षा करनी चाहिए। मन्दाग्निमें कटु, तिक्त और कपैले पदार्थोंके द्वारा वमन करानी चाहिये। तीक्ष्णाग्निमें मधुर और क्लिग्ध पदार्थोंके द्वारा विरेचन एवं भारी और शीतल पदार्थों का सेवन हितकारी है। और विषमाग्निमें स्नेह, अम्ल और नमकीन पदार्थ सेवन करने चाहिए ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥

चिकित्सा ।

अन्नमण्डं पिबेदुष्णं हिंसुसौवर्चलान्वितम् । विषमोऽपि समस्तेन मन्दो दीप्येत पावकः ॥ ८ ॥

भातके मांडमे हींग और काले नमकका चूर्ण डाल कर गरमगरम पीनेसे विषमाग्नि, सम और मन्दाग्नि दीपन होती है ॥ ८ ॥

अष्टगुणमण्ड ।

सुतण्डुलानां प्रसृतद्वयश्च तदर्धमुद्गः कटुकत्रयश्च । कुस्तुम्बुरुसैन्धवहिंसु- तैलमोभिश्च सर्वैः क्रियते च मण्डः ॥९॥ धुद्रोधनो बस्तिविशोधनश्च प्राणप्रदः शोणितवर्धनश्च । ज्वरापहारी कफ- पित्तहन्ता वायुअयेदष्टगुणो हि मण्डः ॥ १० ॥

उत्तम चावल चार पल और मूँग दो पल लेकर चौदहगुने जलमें पकावे। जब वे अच्छे प्रकार सीज जायें तब माँड उतार कर उसमें त्रिकुटा, वनियाँ, सैधानमक हींग इनका चूर्ण उचित मात्रासे मिलाकर और तेलसे छोक देवे। यह मड- धुधाकी वृद्धि करनेवाला, बस्तिशोधक, प्राणरक्षक, रुधिरको बढ़ानेवाला, ज्वरनाशक, कफपित्त नाशक और वायुको हरेनेवाला है। यह आठ गुण इस मडमें है इस लिए इसको अष्टगुण मण्ड कहते हैं ॥९॥१०॥

हरतिका भक्ष्यमाणा नागरेण गुडेन वा । सैन्धवोपहिता वापि सातत्ये- नाभिदीपनी ॥ ११ ॥

हरडके चूर्णको सोठ, गुड अथवा सैधानमक के साथ नित्य सेवन करनेसे अग्नि अत्यन्त दीपन होती है ११ सिन्धूतथहिंसुत्रिफलायवानिव्योषैर्गु- डांशैर्गुडकान्प्रकुर्यात् । तैर्भक्षितैस्तृ- प्तिमवाप्नुयान्नरो भुञ्जीत मन्दाग्निरपि प्रभूतम् ॥ १२ ॥

सैधानमक, हींग, त्रिफला, अजवायन और त्रिकुटा ये सब समानभाग और सबके बराबर गुड लेवे, फिर सबको एकत्र मिलाकर गोलियाँ बनावे। इनको सेवन करनेसे मदाग्निवाला बहुत भोजन करता है और तृप्त होता है ॥ १२ ॥

गुडेन शुण्ठीमथ चोपकुल्यां पथ्यां तृतीयामथ दाडिमं वा । आमेष्वजी- र्णेषु गुदामयेषु वचोर्विबन्धेषु च नि- त्यमद्यात् ॥ १३ ॥

गुडके साथ सोठके चूर्णको या पीपलके चूर्णको, अथवा हरडके चूर्णको किन्वा अनारको सेवन करे। यह प्रयोग आम, अजीर्ण बवासीर और मलविबन्धमें निरन्तर हितकारी है ॥ १३ ॥

विडंगमल्लातकचित्रकामृता सनाग- रा तुल्यगुडेन सर्पिषा । लिहन्ति ये मन्दहुताशना नरा भवन्ति ते वाड- वतुल्यवह्नयः ॥ १४ ॥

वायविडंग, मिलावे, चीता, गिलोय और सोठ, इन सबका एकत्र चूर्ण करके गुड और घीमें मिलाकर सेवन करे तो मदाग्नि बढवाग्निके समान दीपन होती है ॥ १४ ॥

अभया निम्बसंयुक्ता भाक्षितानलवृ- द्धिकृत् । दद्रुविस्फोटकाश्चैव नाश- यत्याशु देहिनाम् ॥ १५ ॥

हरडको नीमके साथ भक्षण करनेसे अग्निकी वृद्धि होती है, तथा दाद और विस्फोटादि विकार नष्ट होते हैं ॥ १५ ॥

दहनाजमोदसैन्धवनागरभरिचाम्ल- त्क्रेण । सैन्धाद्वाग्निकरं पाण्डुरांवि- नाशनं परम् ॥ १६ ॥

चीता, अजमोद, सैधानमक सांठ और काली भिरच, इनको खड़े तकके साथ सेवन करनेसे सात

दिनमें जठराग्नि अत्यन्त द्रोपन होती है तथा पाण्डुरोग और बवासीर रोग दूर होता है ॥ १६ ॥

हरीतकी धान्यतुपोदसिद्धा सपिप्पली सैन्धवहिंशुयुक्ता । सोद्गारधूमं भृशमप्यजीर्णं विजित्य सद्यो जनयेत्क्षुधां च ॥ १७ ॥

हरडको धान्यतुपोदक नामक काजीके द्वारा सिद्ध करके उसमें पीपल, सैन्धानमक और हर्गि मिलाकर सेवन करनेसे धुआयुक्त डकार और अजीर्ण नष्ट होता है तथा भूख अत्यन्त लगती है ॥ १७ ॥

शुण्ठीचूर्णसमायुक्तं यवक्षारं समा-
लिहेत । सर्पिषा प्रातरुत्थाय ततो
वह्निप्रदीपनम् ॥ १८ ॥

सोठके चूर्ण और जवाखारको घृतमें मिलाकर प्रातःकालमें उठकर भक्षण करनेसे अग्नि दीपन होती है ॥ १८ ॥

विजया पिप्पली शुण्ठी त्रिसमं परि-
कीर्तितम् । अग्निसंदीपनं नृणां लृ-
ड्दोषभयनाशनम् ॥ १९ ॥

हरड, पीपल और सोठ इनको समभाग लेकर चूर्ण करले इसको त्रिसम कहते हैं । यह त्रिसम मनुष्योंकी अग्निको दीपन करनेवाला, वृषा और भयनाशक है ॥ १९ ॥

नागराम्बु सदा पथ्यं जीर्णाजीर्णावि-
शंकिनाम् ॥ २० ॥

जिन मनुष्योंको जीर्णाजीर्णकी शका हो उनको सदैव सोठका पानी पीना हितकारी है ॥ २० ॥

किञ्चिदामेन मन्दाग्निरभयागुडनाग-
रम् । जग्ध्वा तक्रेण भुञ्जीत युक्तम-
न्नं षडूषणैः ॥ २१ ॥

हरड, गुड और सोठ इनका एकत्र चूर्ण करके तक्रमे मिलाकर सेवन करे और षडूषणसे सिद्ध किया हुआ अन्न भोजन करे तो आमयुक्त मन्दाग्नि नष्ट होती है ॥ २१ ॥

विश्वाभयागुडूचीनां कषायेण षडू-
षणम् । पिबेच्छेषाणि मन्दाग्नौ त्व-

क्पत्रसुरभीकृतम् ॥ २२ ॥ कणाम-
रिचशुण्ठीभिर्भ्रन्थिकानलचव्यकैः ॥
भिषग्भिराधैराख्यातं चतुष्पञ्च षडू-
षणम् ॥ २३ ॥

सोठ, हरड, गिलोय और षडूषण इनके काथको दालचीनी और तेजपातसे सुवासित करके कफरोग और मन्दाग्निमें पान करे । पीपल, काली मिरच, सोठ, पीपलामूल इन चार औषधियोंको चतुरूपण कहते हैं और जो इसमें चीता मिला लिया जाय तो पंचोपण और चव्य मिलानेसे षडूषण हो जाता है ॥ २२ ॥ २३ ॥

अग्निमान्द्यकी चिकित्साविधि ।

उपवासादिमन्दाग्निर्यवागूभिः पिबे-
द्वृतम् । रौक्षो मन्दे पिबेत्सर्पिः तैलं
वा दीपनेर्युतम् ॥ २४ ॥ चूर्णारि-
ष्टासर्वैर्मन्दमभिस्त्रेहाडुपाचरेत् । भिन्ने
गुदोपलेपास्तु मले तैलसुरासवाः ॥
॥ २५ ॥ उदावर्ते तु मन्दाग्नौ निरूहाः
सानुवासनाः । व्याधियुक्तस्य मन्दा-
ग्नौ सर्पिरेवाग्निदीपनम् ॥ २६ ॥

मन्दाग्निवाला प्रथम लंघनादि करे और फिर घृतयुक्त यवागू पान करे । जो मन्दाग्निमें रुक्षता हो तो घृत अथवा दीपन औषधियोंके साथ तैलको पान करे । मन्दाग्निमें चूर्ण, अरिष्ट, आसव और स्त्रेहादि प्रयोग करे । यदि मल पतल्य हो तो तैल, सुरा और आसव इनका गुदापर प्रलेप करे । मन्दाग्निरोगमें उदावर्त होनेपर निरूहवस्ति और अनुवासनवस्ति उपयोग करनी चाहिये । मन्दाग्निमें घृतका पान ही अग्निको दीपन करता है ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥

अजीर्णरोग ।

आमं विदग्धं विष्टब्धं कफपित्तानि-
लैस्त्रिभिः । अजीर्णं केचिदिच्छान्ति
चतुर्थं रसशेषतः ॥ २७ ॥ अजीर्ण
पञ्चमं केचिन्निर्दोषं दिनपाकि च ।
वदन्ति षष्ठं चाजीर्णं प्राकृतं प्रतिवा-
सरम् ॥ २८ ॥

कफ पित्त और वात इन तीन दोषोंसे क्रमशः आम, विदग्ध और विष्टब्ध ये तीन प्रकारके अजीर्ण होते हैं अर्थात् कफसे आमार्जीर्ण (जिस अजीर्णमें अन्न नहीं पचता) पित्तसे विदग्धार्जीर्ण (जिस अजीर्णमें अन्न जल जाता है) और वातसे विष्टब्धार्जीर्ण (जिसमें भोजन किया हुआ बंधसा जाता है) होता है, चौथा एक रसशेषसे अर्थात् रसशेष अजीर्णमें अन्न अच्छे प्रकारसे नहीं पचता है । एक पाँचवा अजीर्ण दिनपाकी होता है उसमें किया हुआ भोजन दिनभरमें पचता है । यह निदोष है क्योंकि उसमें अफारादि उपद्रव नहीं होते और एक छठा अजीर्ण प्राकृत अर्थात् स्वभावसे होता है । यह निरन्तर होता रहता है ॥ २७ ॥ २८ ॥

कफे क्षीणे यदा पित्तं स्वस्थाने मारुतानुगम् । तीव्रं प्रवर्द्धयेदग्निं तदा तं भस्मकं वदेत् ॥ २९ ॥

कफनाशक पदार्थोंके सेवन करनेसे जब कफ क्षीण हो जाता है तब पित्त वायुके साथ मिलकर अपने स्थानमें अत्यन्त कुपित होकर वायुकी सहायतासे अग्निको अत्यन्त प्रज्वलित कर देता है तब उसको भस्मक रोग कहते हैं ॥ २९ ॥

तृड्दाहश्वासमूर्च्छादीन्कृत्वैवात्यग्नि-सम्भवान् । पक्त्वा रसादिकान्धातू-न्नाशयेदाशु जीवितम् ॥ ३० ॥

इसमें तृपा, दाह, श्वास और मूर्च्छादि अनेक अग्नि सम्बन्धी रोग उत्पन्न होते हैं यह भस्माग्नि आहारको बहुत मीत्र भस्म कर देती है, पश्चान् रस रक्तादि धातुओंको भस्म करके प्राणोंको भी भस्म कर देती है ॥ ३० ॥

अजीर्णनिदान ।

अत्यंबुपानाद्विषमाशनाच्च सन्धार-णात्स्वप्नविपर्ययाच्च । कालेऽपि सा-त्म्यं लघु चापि भुक्तमन्नं न पाकं भजते नरस्य ॥ ३१ ॥

अत्यन्त जलको पीनेसे, विषम भोजन करनेसे, मलमूत्रादिकोंके वेगोंको धारण करनेसे, रात्रिमें जागने से, और दिनमें सोनेसे, इन कारणोंमें भोजनके समय भी सात्म्य (स्वभावके माफिक) और हलका भोजन भी किया जाय तो नहीं पच सकता है ॥ ३१ ॥

ईर्ष्याभयक्रोधपरीक्षितेन लुब्धेन रु-ग्दैर्न्यनिपीडितेन । प्रद्वेषयुक्तं च से-व्यमानमन्नं न सम्यक्परिपाकमे-ति ॥ ३२ ॥

अब मानसिक कारण कहते हैं,—ईर्ष्या अर्थात् पराई सम्पदाको देखकर जलनेसे, भयसे, क्रोधसे, लोभसे, शोकसे, दीनतासे और अत्यन्त द्वेष करनेसे मनुष्योंके किया हुआ भोजन अच्छे प्रकार नहीं पचता है ॥ ३२ ॥

सामान्याजीर्णलक्षण ।

ग्लानिर्गौरवमाटोषो भ्रमो मारुतमू-ढता । विबन्धोऽतिप्रवृत्तिर्वा सामा-न्याजीर्णलक्षणम् ॥ ३३ ॥

ग्लानि, भारीपन, पेटमें अफारा और गुडगुडाहट, भ्रम, अपानवायुका अवरोध, दस्तका न आना, अथवा अत्यन्त आना ये सामान्य अजीर्णके लक्षण हैं ॥ ३३ ॥

आमार्जीर्ण ।

तत्रामे गुरुतोत्केदः शोथो गण्डाक्षि-कूटगः । उद्गारश्च यथाभुक्तमविदग्धः प्रवर्त्तते ॥ ३४ ॥

आमार्जीर्णमें भारीपन, उबकोई आना, गाल और नेत्रोंमें सूजन होना, जैसा भोजन किया जाय वैसे ही भुंथेरहित डकारका आना ये आमार्जीर्णके लक्षण जानने ॥ ३४ ॥

विदग्धार्जीर्णलक्षण ।

विदग्धे भ्रमनृणमूर्च्छा पित्ताच्च विवि-धा रुजः । उद्गारश्च सधूमाम्लः स्वे-दो दाहश्च जायते ॥ ३५ ॥

विदग्ध अजीर्णमें—भ्रम, तृपा, मूर्च्छा, पित्तके अनेक रोग, खट्टी और धूँएयुक्त डकारोंका आना, तथा पसीना और दाह होता है ॥ ३५ ॥

विष्टब्धार्जीर्णलक्षण ।

विष्टब्धे शूलमाधमानं विविधा वात-वेदनाः । मलवाताप्रवृत्तिश्च स्तंभो मोहोऽङ्गसादनम् ॥ ३६ ॥

विष्टब्धाजीर्णमे शूल, अफारा, अनेक प्रकारकी वातकी पीडा, मल और वायुका अवरोध, शरीरका वन्धासा हो जाना, मोह और शरीरमे पीडा हो ३६

रसशेषाजीर्णलक्षण ।

रसशेषेऽन्नविद्वेषो हृदयाशुद्धिर्गौरवे ।

रसशेष अजीर्णमे अन्नं द्वेष अर्थात् अरुचि, हृदयमे जड़ता और भारीपन होता है ॥

अनात्मवन्तः पशुबहुञ्जते येऽप्रमाणतः । रोगानीकस्य ते मूलमजीर्णं प्राप्नुवन्ति हि ॥ ३७ ॥ प्रायेणाहारवैषम्यादजीर्णं जायते नृणाम् । तन्मूलो रोगसङ्घातस्तद्विनाशाद्विनश्यति ॥ ३८ ॥

जिन मनुष्योंका मन बगमे नहीं है वे भोजनके लालची पशुके समान अप्रमाण भोजन करते हैं । अतएव उनके यह अनेक रोगोंका मूल अजीर्णरोग उत्पन्न होता है । प्रायः भोजनकी विषमतासे मनुष्योंके अजीर्णरोग उत्पन्न होता है । वही अजीर्ण रोगोंके समूहको उत्पन्न करनेका कारण है । उस अजीर्णके नष्ट होनेसे सर्व रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

अजीर्णोपद्रव ।

मूर्च्छा प्रलापो वमथुः प्रसेकः सदनं भ्रमः । उपद्रवा भवन्त्येते मरणश्चाप्यजीर्णतः ॥ ३९ ॥

मूर्च्छा, प्रलाप, वमन, मुखसे लारका गिरना, ग्लानि, भ्रम तथा मरण ये सब अजीर्णके उपद्रव हैं ॥ ३९ ॥

अजीर्णकी चिकित्सा ।

वचा लवणतोयेन वान्तिरामे प्रशस्यते । धान्यनागरसिद्धं वा तोयं दद्याद्विचक्षणः ॥ ४० ॥ आमाजीर्णशमनं शूलघ्नं वस्तिशोधनम् ॥ ४१ ॥

आमाजीर्णमे प्रथम वच और नमकके जलसे वमन करावे । फिर धनियाँ और सोठका काढा बनाकर पीवे तो आमाजीर्ण शमन होता है, शूल नष्ट होता है और मूत्राजय शुद्ध होता है ॥ ४० ॥ ४१ ॥

अन्नं विदग्धं हि नरस्य शीघ्रं शीताम्बुना वै परिपाकमेति । तदास्य शैत्येन निहन्ति पित्तमाक्लेदिभावाच्च नयत्यधस्तात् ॥ ४२ ॥

विदग्ध अजीर्णमे शीतल जल पीनेसे विदग्ध भोजन पचजाता है, और शीतताके योगसे पित्त नष्ट होकर गीलेपनसे पचे हुए भोजनको नीचे गेर देता है ॥ ४२ ॥

विष्टब्धे स्वेदनं कार्य्यं पेयं वा लवणोदकम् । रसशेषे दिवास्वप्नं लङ्घनं वातवर्जनम् ॥ ४३ ॥ आलिप्य जठरं प्राज्ञो हिडुच्युषणसैन्धवैः । दिवास्वप्नं प्रकुर्वीत सर्वाजीर्णप्रणाशनम् ॥ ४४ ॥

विष्टब्धअजीर्णमे पसीने निकलवावे अथवा नमक मिला जल पिलावे । रसशेष अजीर्णमे दिनमे सोना, लंघन और निर्वृत्तस्थानमे रहना यह सब उपचार करे । हींग, त्रिकुटा और सैधानमक इनको जलमे पीसकर पेटपर लेप करे और दिनमे शयन करे । यह सब प्रकारके अजीर्णको शमन करते हैं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

व्यायामप्रमदाध्ववाहनरतान्कान्तानतीसारिणः शूलश्वासवतस्तृषाप-रिगतान्हिकामरुत्पीडितान् ॥ क्षीणान्क्षीणकफाञ्छिशून्मदहतान्बृहान्नसाजीर्णिनो रात्रौ जागरितान्नरात्रिरशानान्कामं दिवा स्वापयेत् ॥ ४५ ॥

व्यायाम (दण्ड, कसरत), स्त्रीसंसर्ग, मार्ग चलने और हाथी घोड़ेकी सवारीपर चढ़नेसे थकेहुए मनुष्योंको तथा अतीसार, शूल, श्वास, तृषा, हिचकी वातसे पीडित, क्षीण क्षीण कफवाले, मदसे पीडित, बालक, बृद्ध, अजीर्णवाले, रात्रिमे जागनेवाले और लंघन करनेवाले ऐसे मनुष्योंको दिनमे यथेच्छ शयन कराना चाहिये ॥ ४५ ॥

पथ्यापिप्पलिसंयुक्तं चूर्णं सौवर्चलं पिबेत् । मस्तुनोष्णोदकेनाथ मत्वा दोषगतिं भिषक् ॥ ४६ ॥ चतुर्विधमजीर्णञ्च मन्दानलमथारुचिम् । आध्मानं वातगुल्मञ्च शूलश्चाशु नियच्छति ४७ ॥

हरड, पीपल और काला नमक इनके चूर्णको दहीके पानीके साथ अथवा गरमजलके साथ दोषोकी गतिको जानकर सेवन करावे। यह योग चारो प्रकारके अजीर्ण, मन्दाग्नि, अरुचि, अफारा, वातगुल्म और शूलको शीघ्रही नष्ट करता है ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

**भवेदजीर्णं प्रति यस्य शङ्का स्निग्धस्य
जन्तोर्वलिनोऽन्नकाले । पूर्वं स शुण्ठी-
मभयामशङ्को भुञ्जीत संप्राश्य हितं
हिताशी ॥ ४८ ॥**

स्निग्ध और बलवान् मनुष्यके भोजनके समय यदि अजीर्णकी शंका उत्पन्न हो तो वह प्रथम सोठ और हरडको भक्षण करके पश्चात् हितकारक भोजन करे ॥ ४८ ॥

**विदह्यते यस्य तु भुक्तमात्रं दह्यते
हृत्कोष्ठगलञ्च यस्य । द्राक्षासितामा-
क्षिकसंप्रयुक्तां लीढाऽभयां वै स सुखं
लभेत् ॥ ४९ ॥**

जिसके भोजन करनेपर तत्काल दाह उत्पन्न हो तथा हृदय, कोठ और गलेमें ज्वर हो तो दाख, चिनी और शहद इनको एकत्र मिलाकर सेवन करे इससे सुखकी प्राप्ति होती है ॥ ४९ ॥

**चित्रकचविकानागरमागधिकाग्रन्थि-
कैर्यवागूः स्यात् । शुल्मानिलशूलहरी
रुचिप्रदा वह्निजननी च ॥ ५० ॥**

चीता, चव्य, सोठ, पीपल और पीपलामूल इनके द्वारा सिद्ध की हुई यवागू गुल्म, वात और शूलको हरनेवाली, रुचिकारक और अग्निको दीपन करनेवाली है ॥ ५० ॥

**वत्सकं सतपर्णञ्च करञ्जञ्च दुरालमाम् ।
पाठामारग्वर्धं मूर्वां षड्ग्रन्थां मदनं
दहेत् ॥ ५१ ॥ गोमूत्रेणोपयुक्तस्तु
क्षारोऽयं वह्निदीपनः । शूले निरन्न-
कोष्ठेऽद्रिः कोष्णाभिश्चूर्णितं पिबेत् ॥
॥ ५२ ॥ हिङ्गुप्रतिविषाव्योषसौवर्चल-
वचाभयाः । तीव्रात्तिरपि नाजीर्णे**

**पिबेच्छूलघ्नमौषधम् । दोषप्रस्तोऽनलो
नालं पक्तुं दोषौषधाशनम् ॥ ५३ ॥**

कुडेकी छाल, सतवन, करंज, धमासा, पाठ, अमलतास, मूर्वा, वच और मैनफल, इनको अग्निमें जलाकर भस्म कर लेवे फिर इसका क्षार ग्रहण करके गोमूत्रके साथ सेवन करे तो अग्नि दीपन होती है जो बिना भोजन किये ही शूल उत्पन्न हो तो हींग, अतीस, त्रिकुटा, कालानमक, वच और हरड इनका चूर्ण करके गरमजलके साथ सेवन करे । जो अत्यंत तीव्र अजीर्णकी पीडा हो तो भी शूलनाशक औषधि नहीं पीवे, क्योंकि दोषोसे आच्छादित हुई अग्नि दोष, औषधि और भोजनके पकानेको समर्थ नहीं है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥

**प्रातराशे त्वजीर्णे तु सायमाशो न
दुप्यति । अजीर्णे सायमाशे तु प्रात-
राशो विषीभवेत् ॥ ५४ ॥**

प्रातःकालके भोजनके अजीर्णमें सन्ध्याके समय दोष नहीं होता और सन्ध्याके भोजन करनेके अजीर्णमें प्रातःकाल भोजन करना विषके समान हो जाता है ॥ ५४ ॥

हिङ्गवष्टकचूर्ण ।

**त्रिकटुकमजमोदा सैन्धवं जीरके द्वे
समधरणधृतानामष्टमो हिङ्गुभागः ।
प्रथमकवलभोजी सर्पिषा चूर्णमेत-
ज्जनयति जठराग्निं वातरोगांश्च
हन्ति ॥ ५५ ॥**

त्रिकुटा, अजमोद, सैधानमक, जीरा और काला-जीरा ये सब समान और हींग आठवाँ भाग लेवे, सबको एकत्र कूट पीसकर बारीक चूर्ण करे । फिर इस चूर्णको भोजनके पहले घ्रासेमें घीके साथ मिलाकर भक्षण करे । यह हिङ्गवष्टकचूर्ण—जठराग्निको दीपन करता है और वातरोगोको हरता है ॥ ५५ ॥

अग्निमुख चूर्ण ।

**हिङ्गुभागो भवेदेको वचा च द्विगु-
णा भवेत् । पिप्पली त्रिगुणा देया**

शृङ्गवेरं चतुर्गुणम् ॥ ५६ ॥ यवानिका पञ्चगुणा षड्गुणा च हरीतकी । चित्रकं सप्तगुणितं कुष्ठं चाष्टगुणं भवेत् ॥ ५७ ॥ एतद्वातहरं चूर्णं पीतमात्रं प्रशस्यते । पिबेदध्ना मस्तुना वा सुरया कोष्णवारिणा ॥ ५८ ॥ सोदावर्त्तमजीर्णञ्च प्लीहानमुदरं तथा । अङ्गानि यस्य शीर्यन्ति विषं वा येन भक्षितम् ॥ ५९ ॥ अशोहरो दीपनश्च श्लेष्मघ्नो गुल्मनाशनः । चूर्णो ह्यग्निमुखो नाम्ना न कश्चित् प्रतिहन्यते ॥ ६० ॥

हींग १ भाग, वच २ भाग, पीपल ३ भाग, अदरख ४ भाग, अजवायन ५ भाग, हरड ६ भाग, चीता ७ भाग और कूठ ८ भाग लेवे । पश्चात् सबको एकत्र कूट पीसकर चूर्ण बनावे । इस वातनाशक अग्निमुख चूर्णको दहीके पानीके साथ अथवा सुराके साथ, क्वा मंदोष्ण जलके साथ सेवन करनेसे उदावर्त्त, अजीर्ण, प्लीहा और उदररोग नष्ट होते हैं । जिसका शरीर गलता है अथवा जिसने विष भक्षण करा है, और जो ववासीरसे पीडित है उनके लिये यह आरोग्यदायक है । अग्निको दीपन करनेवाला, कफनाशक और गुल्मनाशक है । यह अग्निमुख चूर्ण कहीं निष्फल नहीं होता है ॥ ५६—६० ॥

द्वितीयाग्निमुखचूर्ण ।

चित्रकहपुषाग्रन्थिकपिप्पलिसौवर्चलाजमोदाभिः । धान्यशटीयवपुष्करक्षाराजाजितित्तिडीकैश्च ॥ ६१ ॥ चव्ययवानीदाडिममृद्रीकैलाम्लवेतसैश्च समैः । अग्निमुखोऽयं चूर्णः काञ्जिकेन मस्तुना सीधुना ॥ ६२ ॥ पीतोऽन्यतमेन नृभिर्गुल्मारुचिवह्निपादशूलानि । दुर्नामप्लीहोदरकफवातमदान्विनाशयति ॥ ६३ ॥

चीता, हाऊवर, पीपलामूल, पीपल, काला नमक, अजमोद, धनियाँ, कचूर, इन्द्रजौ, पोहकरमूल, जवा-

खार, जीरा, तित्तिडी, चव्य, अजवायन, अनारदाना, दाख, इलायची और अम्लवेत ये सब औषधिये समान भाग लेकर कूट पीस कर वारीक चूर्ण करले । इस अग्निमुख चूर्णको कांजी, दहीके पानी अथवा सीधूनमक सुराके साथ सेवन करे तो गुल्म, अरुचि, अग्निकी मंदता, शूल, ववासीर, प्लीहा, उदररोग और कफवातके रोग नष्ट होतेहैं ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥

भास्करलवण ।

पिप्पली पिप्पलीमूलं धान्यकं कृष्णजीरकम् । सैन्धवश्च विडश्चैव पत्रं तालीशकेशरम् ॥ ६४ ॥ एषां द्विपलिकान्भागान्पञ्च सौवर्चलस्य च । मरिचाजाजिशुण्ठीनामेकैकस्य पलं पलम् ॥ ६५ ॥ त्वगेले चार्द्धभागं च सामुद्रात्कुडवद्रयम् । दाडिमात्कुडवश्चैकं द्वे पले चाम्लवेतसात् ॥ ६६ ॥ एतच्चूर्णीकृतं श्लक्ष्णं गन्धाढ्यममृतोपमम् । लवणं भास्करं नाम्ना भास्करेण विनिर्मितम् ॥ ६७ ॥ जगतोऽस्य हितार्थाय वातश्लेष्मामयापहम् । तक्रमस्तुसुराशुक्रमलकाञ्जिकयोजितम् ॥ ६८ ॥ जाङ्गलानूपमांसेषु रसेषु विविधेषु च । मन्दाग्निना खाद्यतां शक्तो भवति पावकः ॥ ६९ ॥ अशोसि ग्रहणीदोषं शोथकुष्ठभगन्दरान् । ह्रोगमामदोषांश्च विविधानुदरे स्थितान् ॥ ७० ॥ प्लीहानं वातरक्तश्च श्वासकासोदरकृमिन् । शूलश्च नाशयत्येतद्दुष्टं नृपमिवापदः ॥ ७१ ॥

पीपल, पीपलामूल, धनियाँ, कालाजीरा, सैधानमक, विरियासंचरनमक, तेजपात, तालीसपत्र, नागकेशर यह प्रत्येक औषधी आठ आठ तोले, कालानमक २० तोले, कालीमिरच, जीरा, सोठ ये प्रत्येक चार चार तोले, दालचीनी और इलायची दो दो तोले, समुद्रनोन ३२ तोले, अनारदाना १६ तोले और

अम्लवेतलतोले लेवे, इन सबको एकत्र वारीक पीस कर चूर्ण बनावे तो लवणभास्कर चूर्ण तैयार होता है। यह उत्तम सुगन्धित अमृतके समान लवणभास्कर चूर्ण संसारके उपकारके लिये श्रीमान् भास्कराचार्य-जीने निर्माण किया है। यह लवणभास्कर-वात और कफके रोगोको नष्ट करता है। अनुपान-तक्र(मट्टा), वहीका तोड, सुरा, चुक्रनामक काजी, नीबूका रस, जांगल और अनूपजीवोंके सांसका रस है। इराको मंदाग्निवाला सेवन करे तो अग्नि अत्यन्त दीपन होती है। यह चूर्ण-ववासीर, संग्रहणी, सृजन, कोढ़, भगन्दर, हृदयरोग, आमदोष, अनेक प्रकारके उदररोग, घृहीहा, वातरक्त, श्वास, खाँसी, उदररोग, कृमि और शूलको नष्ट करता है ॥ ६४—७१ ॥

वडवानल चूर्ण ।

सैन्धवसमूलमगधाचव्यानलनागरहरीतक्यः । क्रमवृद्धमग्निवर्द्धनं करोति वडवानलं चूर्णम् ॥ ७२ ॥

सैधानमक १ भाग, पीपलामूल २ भाग, पीपल ३ भाग, चव्य ४ भाग, चीता ५ भाग, सोंठ ६ भाग और हरड ७ भाग लेवे। सबको एकत्र कूट पीसकर वारीक चूर्ण करलेवे तो वडवानलचूर्ण तैयार होता है। यह वडवानल चूर्ण—अग्निको अत्यन्त दीपन करता है ॥ ७२ ॥

हिंगुद्वादशक चूर्ण ।

हिंगुसैन्धवकृष्णानां कृष्णामूलककोलयोः । यवान्याश्च हरीतक्या दाडिमाम्लिकयोस्तथा ॥ ७३ ॥ वह्निनागरकोप्राणां भागाः संवर्धिताः क्रमात् । हिंगुद्वादशकं नाम चूर्णं ब्रह्मविनिर्मितम् ॥ ७४ ॥ अरुचिपञ्चगुल्मांश्च हृद्भोगं संनियच्छति । अष्टीलाध्मानशूलानां द्रुद्धमर्शासिनाशयेत् ॥ ७५ ॥

हींग, सैधानमक, पीपल, पीपलामूल, कालीमिरच, अजवायन, हरड, अनारवाना, इमली, चीता, सोंठ और वच ये सब औषधि क्रमसे एकसे एक अधिक लेकर चूर्ण करे तो हिंगुद्वादशकनामवाला चूर्ण तैयार होता है। यह चूर्ण ब्रह्माजीने निर्माण किया है। यह अरुचि, पाचो प्रकारके

गुल्म, हृदयरोग, आष्टीला, आध्मान, शूल और दोनो प्रकारकी ववासीरको नष्ट करता है ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥

बृहदग्निमुखचूर्ण ।

द्वौ क्षारौ चित्रकं पाठा करञ्जलवणानि च । सूक्ष्मलापत्रकं भार्ङ्गी कृमिघ्नं हिंशु पुष्करम् ॥ ७६ ॥ शठीं दार्वीं त्रिवृन्दुस्तं वचा चेन्द्रयवास्तथा । धात्री जीरकवृक्षाम्लश्रेयसी चोपकुश्विका ॥ ७७ ॥ अम्लवेतसमम्लीका दाडिमं सकटुत्रिकम् । भल्लातकाजमोदा च यवानी सुरदारु च ॥ ७८ ॥ अभयातिविषा श्यामा हपुषारग्वधं समम् । तिलमुष्ककशिग्रूणां कोकिलाक्षपलाशयोः ॥ ७९ ॥ क्षाराणि लोहकिट्टश्च तप्तं गोमूत्रसेचितम् । सूक्ष्मचूर्णानि कृत्वा तु समभागानि कारयेत् ॥ ८० ॥ मातुलुङ्गरसेनैव भावयेद्विसत्रयम् । दिनत्रयञ्च शुक्तेन आर्द्रकस्वरसेन च ॥ ८१ ॥ अत्यग््निकारकं चूर्णं प्रदीप्ताग्निसमप्रभम् । उपयुक्तं विधानेन नाशयत्यचिराद्दम् ॥ ८२ ॥ अजीर्णकमथो गुल्मं प्लीहानं गुदजानि च । उदराण्यन्त्रवृद्धिञ्च अष्टीलां वानशोणितम् ॥ ८३ ॥ प्रणुदत्युल्वणान्दोषान्नष्टमग्निं च दीपयेत् । समस्तव्यञ्जनोपेतं भक्तं दत्त्वा च भाजने । दापयेदस्य चूर्णस्य विडालपदमात्रकम् ॥ ८४ ॥ गोदोहमात्रात्तत्सर्वं द्रवीभवति सोष्णकम् ॥ ८५ ॥

जवाखार, सजी, चीता, पाठ, करंज, पांचो नमक, छोटी इलायची, तेजपात, भारगी, वायविडंग, हींग, पोहकरमूल, कचूर, दासहल्दी, निसोत, नागरमोथा, वच, इन्द्रजौ, आमले, जोरा, तिनन्तिडीक, गजपीपल, कलौजी, अम्लवेत, इमली, अनार, त्रिकुटा, भिलावे,

अजमोद, अजवायन, देवदारु, हरड, अतीस, पीपल, हाऊवेर, अमलतास, तिलोका खार, मोखेका खार, सैंजनेका खार, तालमखानेका खार और गोमूत्रसे सिद्ध की हुई लोहेकी कीट इन सबको समान भाग लेकर वारीक चूर्ण कर ले फिर इस चूर्णको विजरे नींबूके रसमें तीन दिनतक भावना देवे फिर तीन दिन तक शुक्तनामक कांजीमे और तीन दिनतक अदरखके रसमें भावना देवे तो बृहदग्निमुख चूर्ण तैयार होता है । यह चूर्ण—जठराग्निको प्रदीप्त अग्निके समान अत्यन्त दीपन करनेवाला है । इसको उपर्युक्त विधीके अनुसार सेवन करनेसे बहुत दिनोंके रोग नष्ट हो जाते हैं । तथा अजीर्ण, गुल्म, प्लीहारोग, गुदाके रोग, उदररोग, अन्नवृद्धि, अष्टीला, वातरक्त और अत्यन्त उल्घण दोषोको नष्ट करता है । नष्ट अग्निको दीपन करता है । सम्पूर्ण व्यञ्जनोयुक्त भातको वर्तनमे रख पश्चात् उसमें १ तोला इस चूर्णको डालकर खानेसे गोदोहनकाल अर्थात् खाया हुआ भोजन शीघ्र द्रवीभूत हो जाता है अर्थात् पच जाता है ॥ ७६ ॥ ८५ ॥

बडवामुखचूर्ण ।

पथ्यानागरकृष्णाकरञ्जबिल्वादिभिः
सितातुल्यैः । बडवामुख इव जरयति
बहुगुर्वपि भोजनं त्वरितम् ॥

हरड, सोठ, पीपल, करज और बेलगिरी ये सब औषधि समान भाग और सबके समान मिश्री लेवे । सबको एकत्र पीस लेवे । इसको बडवामुख चूर्ण कहते हैं । यह बडवामुख चूर्ण—अत्यन्त भारी भोजनको भी शीघ्र पचा देता है ॥

ज्वालामुखचूर्ण ।

हिंवाम्लवेतसकटुत्रिकचित्रकेभ्यः
सक्षारपौष्करफलात्रिकदाडिमेभ्यः ।
कार्यः पृथग्गुडपलान्यवकुञ्च्य चूर्णो
ज्वालामुखोऽयमनलस्य करोति दी-
प्तिम् ॥ ८६ ॥

हींग, अम्लवेत, त्रिकुटा, चीता, जवाखार, पोहकरमूल, त्रिफला और अनार ये प्रत्येक औषधि चार २ तोले लेकर जाँकुटके समान चूर्ण करे और सब चूर्णके बराबर गुड मिलावे तो ज्वालामुख चूर्ण तैयार होता है । यह ज्वालामुख चूर्ण—अग्निको अत्यन्त दीपन करता है ॥ ८६ ॥

वृषद्वादशक चूर्ण ।

पिप्पल्यातविषा हिंनुर्नागरेन्द्रयवा
वचा । पाठाजमोदकटुका वृषसौवर्च-
लाभयाः ॥ ८७ ॥ वृषद्वादशकं चूर्ण-
मजीर्णानाहगुल्मनुत् । भगन्दरश्वास-
कासमूत्रकृच्छ्रार्शसां हितम् ॥ ८८ ॥

पीपल, अतीस, हींग, साठ, इन्द्रजौ, वच, पाठ, अजमोद, कुटकी, अडूसा, कालानमक और हरड इन सबको समानभाग लेकर वारीक चूर्ण करले । यह वृषद्वादशक चूर्ण—अजीर्ण, आनाह; गुल्म, भगन्दर, श्वास, खॉसी, मूत्रकृच्छ्र और अर्शरोगमें अत्यन्त हितकारी है ॥ ८७ ॥ ८८ ॥

समशर्करचूर्ण ।

एलात्वङ्नागपुष्पाणां मात्रोत्तरवि-
वर्द्धिता । भरिचं पिप्पली शुण्ठी च-
तुष्पञ्च षडुत्तराः ॥ ८९ ॥ द्रव्याण्येतानि
यावन्ति तावती सितशर्करा । चूर्ण-
मेतत्प्रवक्तव्यमग्निसन्दीपनं परम् ॥ ९० ॥

इलायची १ भाग, दालचीनी २ भाग, नागकेशर ३ भाग, कालीमिरच ४ भाग, पीपल ५ भाग और सौंठ ६ भाग लेवे । सबको एकत्र चूर्ण कर ले और सब चूर्णके बराबर सफेद चीनी मिलावे, इसको समशर्कर चूर्ण कहते हैं । यह अग्निको अत्यन्त दीपन करता है ॥ ८९ ॥ ९० ॥

मरिचादि चूर्ण ।

मरिचाग्निकणा पथ्या दाडिमश्च
महौषधम् । हिंनुसौवर्चलोपेतं चूर्णम-
ग्निकरं परम् ॥ ९१ ॥

कालीमिरच, चीता, पीपल, हरड, अनारदाना, सोठ, हींग, कालानमक इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण बनाकर सेवन करे । यह मरिचादि चूर्ण अग्निको अत्यन्त दीपन करता है ॥ ९१ ॥

नागरादि चूर्ण ।

नागरं कौटजं बीजं पिप्पली बृहती-
द्वयम् । चित्रकं शारिवा पाठा क्षारं
लवणपञ्चकम् ॥ ९२ ॥ चूर्णं पिष्ट्वा
सुरामण्डदधिकोष्णांबुकाञ्जैः । पि-

वेदग्निविवृद्धयर्थं कोष्ठवातहरं पर-
म् ॥ ९३ ॥

सोठ, कुडेके बीज (इन्द्रजौ), पपिल, वडीकटेरी, कटेरी, चीता, अनन्तमूल, पाढ, जवाखार, पांचो नमक इन सब औपधियोको समान भाग लेकर कूट पीसकर चूर्ण बनावे । इस चूर्णको सुराके साथ या मांडके साथ, दहीके साथ अथवा गरम जलके साथ क्वा कांजीके साथ पीवे तो अत्यन्त अग्नि बढ़ती है और कोठकी वायु नष्ट होती है ॥९२ ॥ ९३॥

मस्तुषट्पल घृत ।

पालिकैः पञ्चकोलैस्तु घृतं मस्तु चतु-
र्गुणम् । सक्षारासिद्धमन्दाग्निं कफं
गुल्मञ्च नाशयेत् ॥ ९४ ॥

पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता और सोठ तथा जवाखार प्रत्येक औषधि चार २ तोले, गौका घी ४ पल और दहीका पानी घीसे चौगुना लेवे। यथाविधिसे घृत सिद्ध करे । यह घृत मन्दाग्नि कफ और गुल्मको नष्ट करनेवाला है ॥ ९४ ॥

महाषट्पल घृत ।

शृङ्गवेररसप्रस्थं घृतप्रस्थञ्च तत्समम् ।
चुक्रप्रस्थेन संयोज्यं तथा काञ्जिक-
मस्तुनोः ॥ ९५ ॥ पिप्पली मरिचं
हिंशु साजमोदं सजीरकम् । ह्युषा-
ऽजाजि कृष्णा च सैन्धवं विडमौ-
द्भिदम् ॥ ९६ ॥ सौवर्चलं यवक्षारं
चित्रको हस्तिपिप्पली । चाविका पिप्प-
लीमूलं यवानी धान्यनागरम् ॥ ९७ ॥
एतैः कर्षसैर्भर्गैर्विपचन्मृदुनाग्निना ।
कफजान्हन्ति रोगांश्च वातजान्कृमि-
सम्भवान् ॥ ९८ ॥ अजीर्णं जरयत्या-
शु नराणां बलवर्धनम् । गुल्मप्लीहो-
दरं शूलं ज्वरं हिकं प्रमीलिकाम् ।
॥ ९९ ॥ महाषट्पलमित्येतज्ज्वलनं
दाववह्निवत् । क्षिप्रमेव तथा रोगा-
न्नाशयत्यशनिर्यथा ॥ १०० ॥

अदरखका रस १ प्रस्थ, घी १ प्रस्थ, चूकेका रस १ प्रस्थ, कांजी १ प्रस्थ, दहीका तोड १ प्रस्थ, पीपल, कालीमिरच, हीर्ग, अजमोद, जीरा, हाऊवेर, काला जीरा, सैधानमक, विरियासंचरनमक, रेहका नमक, कालानमक, जवाखार, चीता, गजपीपल, चव्य, पीपलामूल, अजवायन, धनियो और सोठ प्रत्येक औषधि एक २ तोला लेकर कल्क बनावे पश्चात् सबको यथाविधिसे मिलाकर मन्द २ अग्निसे पकावो। जव सिद्ध हो जाय नव उत्तर लेवे । यह घृत सम्पूर्ण कफके रोग, वातरोग, कृमिरोग, अजीर्ण, गुल्म, प्लीहा, उदररोग, शूल, ज्वर, हिचकी और तन्द्राको नष्ट करता है । यह मनुष्योके बलको बढ़ानेवाला और अत्यन्त अग्निको दीपन करनेवाला है ९५॥१००

मरिचादि घृत ।

मरिचं पिप्पलीमूलं नागरं पिप्पली
तथा । भल्लातकं यवानी च विडङ्गं
हस्तिपिप्पली ॥ १०१ ॥ हिंशुः सौव-
र्चलञ्चैव विडसैन्धवचव्यकम् । सामु-
द्रञ्च यवक्षारं चित्रको वचया सह
॥ १०२ ॥ एतैरर्धपलैर्भर्गैर्घृतप्रस्थं
विपाचयेत् । दशमूलरसे सिद्धं पय-
सा द्विगुणेन च ॥ १०३ ॥ मन्दाग्नी-
नां हितं सिद्धं ग्रहणीदोषनाशनम् ।
विष्टम्भमामदौर्बल्यं प्लीहानमपकर्ष-
ति ॥ १०४ ॥ कासं श्वासं क्षयञ्चा-
पि दुर्नाम सभगन्दरम् । कफजान्हं-
ति रोगांश्च वातजान्कृमिसम्भवा-
न् ॥ १०५ ॥ तान्सर्वान्नाशयत्याशु
शुष्कं दावानलो यथा ॥ १०६ ॥

कालीमिरच, पीपलामूल, सोठ, पीपल, भिलावे, अजवायन, वायविडंग, गजपीपल, हीर्ग, कालानमक, विडनमक, सैधानमक, चव्य, समुद्रनमक, जवाखार, चीता और वच ये प्रत्येक औषधि दो दो तोले एवं उत्तम गौ का घी एक प्रस्थ, दशमूलका काथ १ प्रस्थ और दूध २ प्रस्थ लेवे । सबको यथाविधि से मिलाकर विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे । यह घृत मन्दाग्निवाले मनुष्योके लिये हितकारी और संप्र-

हणीको नष्ट करनेवाला है । तथा विष्टम्भ, आम, दुर्बलता, स्त्रीहा, खॉसी, श्वास, क्षय, बवासीर, भगन्दर, सर्वप्रकारके कफरोग, वातरोग, कृमिरोग इन सबको इस प्रकार नष्ट करता है । जिसप्रकार सूखे वनको दावानल जला देती है ॥ १०१—१०६ ॥

धान्यजीरकघृत ।

धान्यजीरकसंसिद्धं घृतमग्निविवर्ध-
नम् । रोचनं दोषशमनं छर्दिदाह-
विनाशनम् ॥ १०७ ॥

धनियाँ और जीरेके कल्कके द्वारा सिद्ध किया हुआ घृत-अग्निंको बढ़ानेवाला, रुचि कारक, त्रिदोषनाशक तथा वमन और दाहको गमन करनेवाला है ॥ १०७ ॥

धान्यघृत ।

धान्यकं निस्तुषं कृत्वा जले चाष्ट-
गुणे पचेत् । तेन पादावशेषेण तत्क-
ल्कैर्विपचेद्घृतम् ॥ १०८ ॥ वातरोगे-
षु सर्वेषु पैत्तिकेषु च शस्यते । कफ-
जेषु च रोगेषु सर्पिरेतद्यथामृतम् १०९

तुपरहित धनियेको अठगुने जलमें पकावे, जब चौथाभाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे । फिर इस काथ और धनियेके कल्कके द्वारा घृतको सिद्ध करे । यह घृत सर्वप्रकारके वातरोग, पित्तरोग और कफ रोगोंमें अमृतके समान हितकारी है ॥ १०८ ॥ १०९ ॥

जीरकघृत ।

जीरके चित्रकं चव्यं यवानी नागरं
तथा । पलिकानि च तत्सर्वं पञ्चै-
व लवणानि च ॥ ११० ॥ आरना-
लाढकं दत्त्वा घृतप्रस्थं विपाचयेत् ।
एतदग्निवृद्धयर्थमर्शां नाशनं
परम् ॥ १११ ॥

जीरा, कालाजीरा, चीता, चव्य, अजवायन, सोंठ और पाचानमक, प्रत्येक औषधि चार चार तोले, कांजी १ आठक और बी १ प्रस्थ लेवे । सबको यथा-विधिसे मिलाकर घृतको सिद्ध करे । यह घृत—अग्निंको दीपन करनेवाला और बवासीरको हरनेवाला है ॥ ११० ॥ १११ ॥

धान्यकघृत ।

धान्यकस्य तु शुद्धस्य चतुःषष्टिपला-
नि च । जलद्रोणे विपक्तव्यं यावत्पा-
दावशेषितम् ॥ ११२ ॥ घृतप्रस्थं प-
चेत्तेन शनैर्मृद्वग्निना भिषक् । जीर-
कस्य पलान्यष्टौ कल्कीकृत्य निधा-
पयेत् ॥ ११३ ॥ अग्निसन्दीपनं हृद्यं
पिवेच्छेष्मनिवर्हणम् । आमशूलं गुदे
शूलं शूलं वङ्क्षणयोनिजम् ॥ ११४ ॥
आमवातमुदावर्तमर्शरोगांश्च ना-
शयेत् ॥

शुद्ध धनियाँ ६५ पल लेकर एक द्रोण जलमें पकावे, जब चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे । फिर इस काथमें १ प्रस्थ घी और जीरेका कल्क ८ पल डालकर यथाविधि मंद २ अग्निसे घृतको पकावे । यह घृत-अग्निंको दीपन करनेवाला, हृदयको हितकारी, कफनाशक तथा आमशूल, गुदज-शूल, वङ्क्षणशूल, योनिशूल, आमवात, उदावर्त और सब प्रकारकी बवासीरको हरनेवाला है ॥ ११२-११४ ॥

अग्निघृत ।

पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रको हस्ति-
पिप्पली । हिं गुचव्याजभोदा च पञ्चैव
लवणानि च ॥ ११५ ॥ द्रौ क्षारौ ह-
पुषा चैव दद्यादर्धपलोन्मितान् । द-
धिकाश्रिकशुक्तानि घृतमात्रा समा-
नि च ॥ ११६ ॥ आर्द्रकस्य रसप्रस्थे
घृतप्रस्थं विपाचयेत् । एतदग्निमुखं
नाम मन्दाग्नीनां प्रशस्यते ॥ ११७ ॥
अर्शां नाशनं श्रेष्ठं तथा गुल्मोद-
रापहम् । ग्रन्थ्यर्बुदापचीकासकफमे-
दोऽनिलानपि ॥ ११८ ॥ नाशयेद्ग्रह-
णीदोषं श्वयथुं सभगन्दरम् । ये च ब-
स्तिगता रोगा ये च कुक्षिं सभाश्रि-
ताः । सर्वास्तान्नाशयत्याशु सूर्य-
स्तम इवोदितः ॥ ११९ ॥

पीपल, पीपलामूल, चीता, गजपीपल, हींग, चव्य, अजमोद, पांचोन्नमक, जवाखार, सजी और हाऊवेर ये प्रत्येक औषधि दोदो तोले, दही, कांजी, शुक्त, अदरखका रस और घी ये सब समानभाग लेवे । सबको यथाविधि मिलाकर उत्तम विधिसे घृतको सिद्ध करे । यह अग्निमुख घृत-मंग-मिवाले मनुष्योंको अत्यन्त हितकारी है । तथा ववासीर, गुल्म, उदररोग, संग्रहणीरोग, सूजन, भगन्दर, सर्वप्रकारके वस्तिगत रोग और सर्वप्रकारके कुक्षिगत रोगोंको नष्ट करता जिसप्रकार उदयहुआ सूर्य अंधकारके समूहको नष्ट करता है ११५-११९ ॥

अल्पचुक्र ।

यन्मस्त्वादिशुचौ भाण्डे सक्षौद्रगुड-
काञ्जिकम् । धान्यराशौ त्रिरात्रस्थं
शुक्तं चुक्रं तदुच्यते ॥ १२० ॥

शुद्धवर्तनमे गृहद, गुड, कांजी और मस्त्वादि (दहीका पानी इत्यादि) भरकर तीन राततक धानोके ढेरसें रखवा रहने देवे । इसको अल्पचुक्र कहते हैं ॥ १२० ॥

चुक्रसन्धानविधान ।

गुडक्षौद्राणालानि समस्तूनि यथो-
त्तरम् । शंसन्ति द्विगुणान्भागान्सम्य-
क्चुक्रस्य सिद्धये ॥ १२१ ॥

चुक्रके बनानेके लिये गुड १ भाग, सहद्व २ भाग, कांजी ४ भाग और दहीका पानी ८ भाग लेना चाहिये ॥ १२१ ॥

बृहच्चुक्रसन्धानविधान ।

प्रस्थं तंडुलतोयतस्तुपजलात्प्रस्थत्रयं
चाम्लतः प्रस्थार्धं दधितोऽम्लमूलक-
फलान्यष्टौ गुडान्मानिके । मान्यौ
शोधितशृङ्गवेरसकला द्वे सिन्ध्वजा-
ज्योः पले द्वे कृष्णोषणयोर्निशापल-
युगं निक्षिप्य भाण्डे दृढे ॥ १२२ ॥
क्षिग्धे धान्ययवादिराशिनिहितं
त्रिन्वासरान्स्यापयेद्गीष्मे तोयधरात्य-
ये च चतुरो वर्षासु पुष्पागमे ॥ षट्-
शीनेऽष्टदिनान्यतः परिमितं विस्त्रा-

व्य संवापयेच्चातुर्जातपलेन संहित-
मिदं शुक्तञ्च चुक्रञ्च यत् ॥ १२३ ॥
हन्याद्वातकफामदोषजनितान्ना-
विधानामयान् दुर्नामानि च शूलगु-
ल्मजठरान्हत्वाऽनलं दीपयेत् ॥ १२४ ॥

चावलोका जल १ प्रस्थ, तुपाठक कांजी ३ प्रस्थ, अम्लदही आधा प्रस्थ या नीवूका अर्क, मूली और फल ८ प्रस्थ, गुड ३२ ताळे, शुद्ध अदरख सबसे दुगुना, सैधा नमक ८ तोले, जीरा ८ तोले, पीपल ८ तोले, कालीमिरच ८ तोले, और हल्दी ८ तोले लेवे । सबको एकत्र करके उत्तम विधिसे दृढ और चिकने वासनमे भरके धानोके ढेरमे तीन दिनतक गाड देवे यह सन्धान ग्रीष्म और प्रावृट् ऋतुमे चार दिनमे, वर्षा ऋतु और वसन्तऋतुमे छ दिनमे और हेमन्तऋतुमे आठ दिनमे तैयार हो जाता है । फिर इसको छानकर चातुर्जातक (दालचीनी, इलायची, तेजपात, नाग-केशर) का चूर्ण चारतोले मिला देवे । इसको शुक्त और चुक्र कहते हैं । यह-वात, कफ, आमदोषजन्य रोग, अनेक प्रकारके रोग, ववासीर, गूल, गुल्म और समस्त उदररोगोंको नष्ट करता है तथा मन्दाग्निको दीपन करता है ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ १२४ ॥

चित्रकगुड ।

वह्नेद्विपञ्चमूलस्य काथे पलशतद्वये ।
अमृताया रसस्यैके पूतेऽस्मिन्नभया-
ढके ॥ १२५ ॥ पचेद्गुडतुलां तावद्याव-
दापाकलक्षणम् । अन्येद्युस्तत्र
मधुनः सुशति कुडवद्वयम् ॥ १२६ ॥
प्रक्षिपेत्त्रिसुगन्धस्य त्रिकटोश्च पलं
पलम् । प्रत्येकं स्याद्यवक्षाराच्छुक्ति-
स्तस्मिन्नसायने ॥ १२७ ॥ उत्तमं क-
थितं पुंसामथिभ्यामग्निवृद्धये । जी-
र्यत्यपि हि काष्ठानि कासश्वासं क्षयं
कृमीन् ॥ १२८ ॥ गुल्मोदरार्शःकुष्ठा-
नि सान्त्रवृद्धिं निहन्ति च । योगैः
शतैरप्यजितास्यहाजयति पीन-
सान् ॥ १२९ ॥

चीते और दशमूलका काथ २००पल, गिलोयका रस एक आठक, हरडका काथ एक आठक और उत्तम गुड १००पल लेवे. सबको यथाविधिसे भिन्ना कर पकावे, जब पाक सिद्ध होजाय तब उतार लेवा। फिर दूसरे दिन शीतल होनेपर उसमें गृहद दो कुडव, त्रिगुगन्ध (दालचीनी, इलायची, तेजपात) और त्रिकुटा (सोठ,मिरच, पीपल) प्रत्येक चार२ तोले और जवाखार दो तोले मिलादेवे। यह उत्तम रसायन अश्विनीकुमारोंने अग्नि को दीपन करनेके लिये कही है। इसको सेवन करनेसे काष्ठ भी जीर्ण होजाता है। एवं खोसी, श्वास, क्षय, कृमि, गुल्म, उदररोग, ववासीर, कोढ़, अन्त्रवृद्धि तथा सैकड़ों औषधियोंसे भी आरोग्य नहीं हुआ पीनसरोग इससे तीन दिनमें नष्ट हो जाता है ॥ १२५--१२९ ॥

चित्रकहरीतक्यमृतेत्यत्र चित्रकादीनां त्रयाणामम्भः प्रत्येकं पञ्चाशत्पलं दत्त्वा विस्त्राव्य सार्द्धद्वादशवासराः स्थापयितव्यम् ॥

चीता, हरड और गिलोय, प्रत्येक औषधियोंमें पांच २ सौ पल जल डालकर काथ पकाना चाहिये फिर छानकर अठारह दिनतक रखना चाहिये।

क्षारगुड ।

द्वे षाठे दशमूलार्ककटुफलातिविषात्रिवृत । भागेदशपलान्दत्त्वा जलद्रोणे विषाययेत् ॥ १३० ॥ पादशेषे गुडतुलां दत्त्वा पक्के गुडे ततः चूर्णितां पञ्चपलिकां चव्यव्योषहरीतकीम् ॥ १३१ ॥ चित्रकं सयवक्षारं द्विगुणं तत्र दापयेत् । दर्व्याः प्रलेपनं वापि ततस्तमवतारयेत् ॥ १३२ ॥ हिंवल्लवेतसं चव्यं त्रिवृतस्तु पलं तथा । क्षिप्त्वा चेकीकृतं सर्वं स्थापयेद्भाजने शुभे ॥ १३३ ॥ ततः क्षारगुडं खादेदजीर्णारुचिनाशनम् । प्लीहार्शः शोथपांडुत्वमेहकुष्ठजरापहम् ॥ १३४ ॥

दोनो प्रकारका पाढ़, दशमूल, आक, कायफल, अर्ताम और निसोत ये प्रत्येक दश दश पल लेकर

एक द्रोण जलमें पकावे। जब चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे। फिर उसमें गुड १०० पल, चव्य, त्रिकुटा और हरडका चूर्ण ५पल, चीता और जवाखार १० पल मिलाकर पकावे। जब पकते पकते करधीसे चिपटने लगे, तब उतार लेवे। फिर इसमें हींग, अमलवेत, चव्य और निसोतका चूर्ण चार तोले मिलाकर सबको एकमएक करके एक उत्तम चिकने वासनमें भरकर रख देवे। इस क्षारगुडको अजीर्ण, अरुचि, प्लीहा, ववासीर, सूजन, पाण्डु, प्रमेह, कोढ और वृद्धताको दूर करनेके लिये भक्षण करे ॥ १३०--१३४ ॥

द्वितीयक्षारगुड ।

द्वे पञ्चमूले त्रिफला त्रिवृन्मूलं शतावरी । दन्ती चित्रकमास्फोता राक्षा पाठा सुधा शटी ॥ १३५ ॥ पथ्या दशपलान्भागान्दग्ध्वाम्भसि समाहरेत् । त्रिःसप्तकृत्वस्तद्द्रुस्म जलद्रोणे च गालयेत् ॥ १३६ ॥ तद्द्रोणं साधयेदग्नौ चतुर्भागावशेषितम् । ततो गुडतुलां दत्त्वा साधयेन्मृदुनाग्निना ॥ १३७ ॥ सिद्धं गुडन्तु विज्ञाय चूर्णानीमानि दापयेत् । वृश्चिकालीं द्विकाकोल्यौ यवक्षारं समावपेत् १३८ एतत्पञ्चपलान्भागान्पृथक्पञ्च पलानि च । हरीतकीं त्रिकटुकं स्वर्जिकां चित्रकं वचाम् ॥ १३९ ॥ हिंवल्लवेतसाभ्याश्च द्वे पले तत्र दापयेत् । अक्षप्रमाणां गुटिकां कृत्वा खादेद्यथाबलम् ॥ १४० ॥ अजीर्णं जरयत्येष जीर्णं सन्दीपयत्यपि । भुक्तं भुक्तश्च जीर्ण्येत पाण्डुत्वमपकर्षति ॥ १४१ ॥ प्लीहार्शांसि श्वयथुश्च श्लेष्मकासमरोचकम् । मन्दाग्निश्च विषाग्निश्च कफं कण्ठोरसस्तथा ॥ १४२ ॥ कुष्ठानि च प्रमेहांश्च गुल्मं चाशु व्यपोहति । ख्यातः क्षारगुडो ह्येष रोगग्रस्तं प्रयोजयेत् ॥ १४३ ॥

दशमूल, त्रिफला, निसोतकी जड, शतावर, दन्ती, चीता, कोयल, रायसन, पाद, थूहर कचूर और हरड, ये प्रत्येक औषधि दश २ पल लेकर अग्निसे जलाकर भस्म कर लेवे । फिर उस भस्मको २१ वार एक द्रोण जलमे पकावे, फिर उस क्षार जलको पकावे जब पकते २ चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब सौ पल गुड डाल कर मन्द मन्द अग्निसे पकावे । जब गुड सिद्ध होजाय तब वृश्चिकाली (विछारी), काकोली, क्षीरकाकोली और जवाखार ये प्रत्येक औषधि पांच २ पल, हरड, त्रिकुटा, सजी, चीता, वच, हीग और अमल-वेत प्रत्येक आठ २ तोले मिला देवे । फिर एक २ तोलेकी गोली बनाकर बलानुसार भक्षण करे । यह क्षारगुड-अजीर्णको जीर्ण करनेवाला, जीर्णमे अग्नि को दीपन करनेवाला, भोजनको तत्काल जीर्ण करने वाला, पाण्डुरोगको नष्ट करनेवाला, तथा प्लीहा, चवा-सीर, सूजन, कफ, खोंसी, अरुचि, मंदाग्नि, विष-मारिण, कण्ठका कफ, कोढ, प्रमेह और गुल्म रोगको शीघ्रही नष्ट करता है । यह क्षारगुड नामसे प्रसिद्ध है । इसको रोगसे प्रसित मनुष्यको देना चाहिये ॥ १३५-१४३ ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां अजीर्णरोगाधिकार
तथा अग्निमांदाधिकार संपूर्ण ॥

अथ विषूचिकादिनिदान ।

स्वरूपं यदा दोषविवद्धमामं लीनं न
तेजःपथभावृणोति । भवत्यजीर्णोऽपि
तदा बुभुक्षा सा मन्दबुद्धिं विषव-
न्निहन्ति ॥ १४४ ॥

जब थोडासा दोषसे बाँधा और छिपा हुआ हो तब वह अग्निके मार्गको नहीं रोकता अर्थात् भूखको बन्द नहीं करता है इसलिये अजीर्णमे भी भूखलगती है । वह भूख मूर्ख मनुष्यको विषके समान मार देती है ॥ १४४ ॥

प्रार्थेणाहारिवैषम्यादजीर्णं जायते
नृणाम् । तन्मूलो रोगसंघातस्तद्वि-
नाशाद्विनश्यति ॥ १४५ ॥

बहुधा आहारकी विपमतासे मनुष्यके अजीर्ण रोग उत्पन्न होता है, जो सब रोगोंकी जड है, उसके नष्ट होनेसे सर्वरोग नष्ट हो जाते हैं ॥ १४५ ॥

अजीर्णमामं विष्टब्धं विदग्धञ्च यदी-
रितम् । विपूच्यलसकौ तस्माद्भवे-
च्चापि विलम्बिका ॥ १४६ ॥

आम, विष्टब्ध और विदग्ध ये जो अजीर्ण कहे हैं-उनसे विपूचिका, अलसक और विलम्बिका ये तीन रोग क्रमशः उत्पन्न होते हैं ॥ १४६ ॥

सूचीभिरिव गात्राणि तुदन्सन्तिष्ठते-
ऽनिलः । यस्याजीर्णेन सा वैद्यैर्वि-
पूचीति निगद्यते ॥ १४७ ॥

जिस मनुष्यके अजीर्णमे वायुसे शरीरमें सुई चुभने सरीखी पीडा हो उसको विपूचिकारोग कहते हैं ॥ १४७ ॥

न तां परिभिताहारा लभन्ते विदि-
तागमाः । मूढास्तामजितात्मानो
लभन्तेऽशनलोलुपाः ॥ १४८ ॥

यह विपूचिका रोग परिमित भोजनकरनेवाले और वैद्यक शास्त्रको जाननेवाले मनुष्यको उत्पन्न नहीं होता है, यह रोग उन्हींको उत्पन्न होता है जो पुरुष मूर्खबुद्धि है, जिनकी इन्द्रियें वशमे नहीं हैं और जो भोजनके लालची हैं ॥ १४८ ॥

विपूचिकाके लक्षण ।

मूर्च्छांतिसारौ वमथुः पिपासा शूल-
भ्रमोद्वेष्टनजृम्भदाहाः । वैवर्ण्यक-
म्पौ हृदये रुजश्च भवन्ति भेदः
शिरसश्च तस्य ॥ १४९ ॥

मूर्च्छा, अतिसार, वमन, तृषा, शूल, भ्रम शरीर में ऐठन, जम्भाई, दाह, विवर्णता, कंफ, हृदयमे वेदना और शिरमे तोडने सरीखी पीडा ये सब लक्षण जिस रोगमे हो उसको विपूचिका कहते हैं ॥ १४९ ॥

अलसकके लक्षण ।

कुक्षिरानह्यतेऽत्यर्थं प्रताम्येत प्रकू-
जति । निरुद्धो मारुतश्चैव कुक्षाबु-

परिधावति ॥ १५० ॥ वायुः कम्प-
भ्रमानाहशूलादीन्प्रकरोति वा ।
पित्तं ज्वरातिसारौ च दाहादिस्वेद-
नानि च ॥ १५१ ॥ श्लेष्माद्गुरुता-
च्छर्दिवाग्भङ्गघ्नीवनानि च ॥ १५२ ॥
वातवच्चोनिरोधश्च यस्यात्यर्थं भवे-
दनु । तस्यालसकमाचष्टे तृष्णोद्धारौ
च यस्य वै ॥ १५३ ॥

जिसमें कुक्षि और उदरमें अफारा हो, वेदनाके
मारें कूजे, वायु रुक कर कोख, कण्ठादिमें विचरण
करे तथा कम्प, भ्रम, आनाह और शूलादि उपद्र-
वोंको उत्पन्न करे, पित्त, ज्वर, अतीसार, दाहादि
और स्वेदादि उपद्रवोंको करे । कफ, शरीरमें भारी-
पन, वमन, स्वरभंग और घ्नीवन (थूकना) को करे,
अपानवायु और मलमूत्रादिका अवरोध हो, तृषा लगे
और डकार आवे ये लक्षण हो तो उसको अलसक
कहते हैं ॥ १५० ॥ १५१ ॥ १५२ ॥ १५३ ॥

नाधो गच्छति यो नोर्ध्वमाहारो न
विपच्यते । तेन सोऽलसको नाम्ना
शीघ्रं देहविनाशकृत् ॥ १५४ ॥
दोषास्त्वलसके प्रोक्ताश्छर्द्यतीसारव-
र्जिताः । कारकास्तीव्रशूलादेः स्रो-
तसः सन्निरोधकाः ॥ १५५ ॥ ति-
र्यग्जातास्तनुस्तब्धाः स्तम्भवत्स्त-
म्भयन्ति च । स दण्डालसकस्त्या-
ज्यः शीघ्रं देहविनाशकृत् ॥ १५६ ॥

जिस अजीर्णमें क्रिया हुआ भोजन न ऊपरको
वमनके मार्गसे निकले और न नीचेको गुदाके
मार्गसे गिरे और न पचे उसको शीघ्र शरीरको नष्ट
करनेवाला अलसक रोग कहते हैं । अलसकरोगमें
कुपित हुए दोष यदि वमन और अतीसारको न करे
तो तीव्र शूल और शरीरके स्रोतोंका अवरोध करते
हैं, तथा तिर्यग् मार्गसे होकर शरीरको स्तम्भकी
समान स्तम्भित कर देते हैं उसको दंडालसक रोग
कहते हैं यह शीघ्र प्राणोंको नष्ट करनेवाला है । इस
कारण यह रोग त्याज्य है ॥ १५४ ॥ १५५ ॥ १५६ ॥

विलंबिकाके लक्षण ।

दुष्टञ्च भुक्तं कफमारुताभ्यां प्रवर्तते
नोर्ध्वमधश्च यस्य । विलंबिकान्तां
भृशदुश्चिकित्स्यामाचक्षते शास्त्र-
विदः पुराणाः ॥ १५७ ॥

जब वात, कफ दुष्ट होकर किये हुए भोजनको न
वमनके द्वारा मुखमार्गसे निकाले और न गुदाके
मार्गसे मलरूपसे पतित करे तब उसको आयुर्वेदके
जाननेवाले वैद्य दुश्चिकित्स्य विलम्बिका रोग कहते
हैं ॥ १५७ ॥

अजीर्णमें आमके कार्य ।

यत्रस्थमामं विरुजेतमेव देशं
विशेषेण विकारजातैः । दोषेण ये-
नावततं शरीरं तल्लक्षणैरामसमुद्भ-
वैश्च ॥

जहां आम रहती है वह स्थान जिस दोषसे व्याप्त
है उसके लक्षणोंसे और आमके लक्षणोंसे शरीर
विशेष प्रकारकी वेदना युक्त होता है ॥

असाध्य लक्षण ।

यः श्यावदन्तौष्ठनखोऽल्पसंज्ञो व-
म्यर्दितोऽभ्यन्तरजातनेत्रः । क्षाम-
स्वरः सर्वविमुक्तसन्धिर्यायान्नरोऽसौ
पुनरागमाय ॥

जिसके दांत, होठ और नाखून ये काले पड़जायें,
कुछ कुछ बेहोसी होवे, वमनसे पीड़ित होवे, नेत्र
भीतरको घुसे जायें, स्वर बैठ जाय और सर्व शरी-
रके जोड़ ढीले पड़जायें वह रोगी असाध्य जानना ।

जीर्णहारके लक्षण ।

उद्गारशुद्धिरुत्साहो वेगोत्सर्गो यथो-
चितः । लघुता क्षुत्पिपासा च जीर्णा-
हारस्य लक्षणम् ॥ १५८ ॥

शुद्ध डकारका आना, शरीर और चित्तमें उत्सा-
हका होना, भोजनके अनुसार मलमूत्रका ठीक उत्-
रना, बेहमे हलकापन हो और क्षुधा, तृषाका लगना
ये जीर्ण आहारके लक्षण हैं ॥ १५८ ॥

विषूचिकाके उपद्रव ।

निद्रानाशोऽरतिः कम्पो मूत्राघातो
विसंज्ञता । अमी उपद्रवा घोर
विषूच्यां पञ्च दारुणाः ॥ १५९ ॥

निद्राका न आना, वेकली, कप, मूत्रका अवगोध
और संज्ञाका नाश ये विषूचिकाके पांच घोर
उपद्रव है ॥ १५९ ॥

चिकित्सा ।

विषूच्यां सर्वरूपाणि सन्नियम्य चि-
कित्सकः । वमनं कारयेत्क्षिप्रमुष्णे-
न लवणाम्बुना ॥ १६० ॥

सर्वलक्षणोंयुक्त विषूचिकारोगमे नमक और गरम
जलके द्वारा वमन करावे ॥ १६० ॥

यावत्सन्तिष्ठते दुष्टो नरस्यान्नरसो
हृदि । तावन्मर्माणि भिद्यन्ते विषं
पीतवतो यथा ॥ १६१ ॥

जवतक मनुष्योके हृदयमे दुष्ट अन्नका रस
स्थित रहता है तवतक विषको पिये हुएके समान
मर्म स्थानोमे पीडा होती है ॥ १६१ ॥

विषूच्यामतिवृद्धायां पाण्योर्दाहः
प्रशस्यते । तद्दिने लङ्घनं कार्यं विरक्त-
वदुपाचरेत् ॥ १६२ ॥

अत्यन्त बढीहुई विषूचिकामे अग्निके द्वारा एंडीमे
दाग देवे, तथा लघन करावे और विरेचन करावे
॥ १६२ ॥

जातीफलञ्च चुक्रञ्च मिष्टतैलेन पाच-
येत् । तेन मर्दनमात्रेण खल्लीशूलं
निवारयेत् ॥ १६३ ॥

जायफल और चूकेकी मीठे तेलमे पकाकर मर्दन
करनेसे खल्ली शूल नष्ट होता है ॥ १६३ ॥

कुष्ठसैन्धवयोः कल्कं चुक्रतैलसमन्वि-
तम् । विषूच्यां मर्दनं कोष्णं खल्ली-
शूलनिवारणम् ॥ १६४ ॥ चुक्रा-
भावेऽत्र काञ्जिकं देयमिति ।

कूठ और सैधानमक, उनके कल्कको चुक्र और
तेलमे मिलाकर विषूचिकामें मन्दोष्ण मर्दन करनेसे
खल्लीशूल नष्ट होता है । इसमें यदि चुक्र न मिले तो
उसके अभावमें कांजी लेनी चाहिए ॥ १६४ ॥

अर्करसादितैल ।

अर्कपत्ररसप्रस्थं प्रस्थं धतूरकम्य च ।
श्वेतस्तुहीरमप्रस्थं प्रस्थं सौभानना-
द्रकात् ॥ १६५ ॥ कुष्ठसैन्धवयोः कल्कं
पले द्वे द्वे प्रमाणनः । एकीकृत्य समम्नं
तदाधिकं चाम्लकाञ्जिकम् ॥ १६६ ॥
तैलप्रस्थं समावाप्य पंचमृद्भग्निना
शनः । खल्लीं निवारयत्येताद्विषूचो-
रोगसम्भवाम् ॥ १६७ ॥ पत्राघा-
तामवातांश्च गुध्रसीं खञ्जपदुनाम् ॥

आकेक पत्ताका रस ६४ तोले, धतूरके पत्ताका
रस ६४ तोले, सफेद थूहरका रस ६४ तोले, सैजि-
नेका रस ६४ तोले, अदरकका रस ६४ तोले, कूठ
और सैधेनमकका कल्क आठ आठ तोले, दही और
रुष्टी कांजी एक एक प्रस्थ और तिलका तेल एक
प्रस्थ लेवे । इन सबको एकत्र मिलाकर मंद मंद
अग्निके धीरे २ पकावे । यह अर्करसादि तैल-विषू-
चिकारोगमें उत्पन्न हुए खल्लीशूल, पक्षाघात, आम-
वात, गुध्रसीवात, खञ्जता और पंगुताको नष्ट
करता है ॥ १६५—१६७ ॥

करञ्जनिम्बशिखरीगुडूच्यर्जुनवत्स-
कैः । पीतः कषायो वमनाद्घोरां
हन्ति विषूचिकाम् ॥ १६८ ॥

करञ्ज, नीम, चिरायता, गिलोय, अर्जुनकी छाल
और कुडेकी छाल इनका काथ बनाकर पान करे तो
वमन होकर घोर विषूचिका रोग नष्ट होता है ॥ १६८ ॥

हन्ति दन्त्यग्निक्लकस्तु पिप्पलीक-
ल्कसंयुतः । पीतः कोष्णेन तोयेन
क्षिप्रं हन्याद्विषूचिकाम् ॥ १६९ ॥

दन्ती, चीता और पिपिल इनका कल्क बनाकर
गरम जलके साथ पान करनेसे तत्काल विषूचिका
नष्ट होती है ॥ १६९ ॥

अंजन ।

व्योषं करंजस्य फलं हरिद्रे मूलं समावाप्य च मातुलुङ्ग्याः । छाया-
विशुष्का वटिका तु कार्या हन्या-
द्विपूचीं नयनाञ्जनेन ॥ १७० ॥

त्रिकुटा, करंजफल, दारुहल्दी, हल्दी और विजौरे नीबूकी जड इनको एकत्र पीसकर गोली बनाकर छायामे सुखादेवे, इन गोलियोंको नेत्रोमे आंजनेसे विपूचिका रोग नष्ट होता है ॥ १७० ॥

द्वितीय अंजन ।

गुडपुष्पसारशिखरी तंडुलं गिरिक-
र्णिका हरिद्रे द्वे । अञ्जनगुटिका वि-
लयति विपूचिकां त्रिकटुकसनाथा १७१

सहुएका सार, चिरचितके चावल, नीली कोपल, हल्दी, दारुहल्दी और त्रिकुटा इनको एकत्र कूट पीस कर गोली बनालेवे । इनको नेत्रोमे आंजनेसे विपूचिका रोग नष्ट होता है ॥ १७१ ॥

त्वक्पत्रास्त्राऽगुरुशिशुकुष्ठैरत्यम्ल-
पिष्टैः सवचाशताह्वैः । उद्वर्त्तनं खल्लि-
विपूचिकाघ्नं तैलं विषकृश्व तदर्थका-
रि ॥ १७२ ॥

दालचीनी, तेजपात, रायसन, अगर, सहिजना, कूठ, वच और शतावर इनको एकत्र नीबूके रसमे पीसकर लेप करनेमे अथवा उक्त औषधियोंका तैल पकाकर लेप करनेसे खलीसहित विपूचिकारोग नष्ट होता है ॥ १७२ ॥

पिपासायामथोत्केशे लवंगस्याम्बु
शस्यते । जातीफलस्य वा शीतं
शृतं भद्रघनस्य च ॥ १७३ ॥ सरुग्वा-
ऽऽनद्धमुदरमम्लपिष्टैः प्रलेपयेत् ।
दारुहैमवतीकुष्ठशताह्वाविश्वसैन्धवैः

॥ १७४ ॥ तक्रेण युक्तं यवचूर्णमुष्णं
सक्षारमार्त्तिं जठरस्य हन्यात् । स्वे-
दो घटैर्वा बहुवाष्पपूर्णैरुष्णैस्तथा-
न्यैरपि पाणितापैः ॥ १७५ ॥

प्यास और अत्यन्त उबकाईमे लौंगोका औटाया हुआ पानी अथवा जायफलका किम्बा नागरसोथेका काथ पान करना उत्तम है । शूलयुक्त अफारा हो तो दालचीनी, सत्यानाशी कटेरी, कूठ, शतावर, सोठ और सैधे नमकको नीबूके रसमे पीसकर पेटपर लेप करे। एवं जौका चून और जवाखार इनको तक्रमे मिलाकर गरम करके उदरके ऊपर लेप करनेसे उदरका शूल नष्ट होता है । अथवा बडेमे गरमजल भरकर उसके द्वारा स्वेद देनेसे या हाथोसे सेक करनेसे विपूचिका रोग दूर होता है ॥ १७३ ॥ १७४ ॥ १७५ ॥

विलंबिकालसकयोरयमेव क्रिया-
क्रमः ॥ १७६ ॥

विलम्बिका और अलसक रोगमे इसीप्रकार चिकित्सा करनी चाहिए ॥ १७६ ॥

सुरसादि करञ्जादि सहकाररसं तथा।
हिंशु सौवर्चलं चुक्रं मधुमद्यानि यानि
च ॥ १७७ ॥ एतेषामूर्ध्वभागित्वात्स-
म्यग्जीर्णैऽपि देहिनाम् । अजीर्णता-
मिवोद्धारोगन्धतो ह्युपलक्ष्यते ॥ १७८ ॥

सुरसादिगणकी औषधिये, करंजादिगणकी औषधिये, आमका रस, हींग, कालानमक, चूक, मधु और सब प्रकारकी मदिरा, इनके ऊर्ध्वभागी होनेसे अच्छे प्रकार जीर्ण होनेपर भी मनुष्योंको अजीर्णके समान डकारे आती है । और वह गन्धसे जानीजाती हैं ॥ १७७ ॥ १७८ ॥

इति वंगसेने भाषाटीकायां विपूचिकादि
आधिकार संपूर्ण ॥

अथ भस्मकनिदानचिकित्सा ।



कफे क्षीणे यदा पित्तं स्वस्थाने मारु-
तालुगम् । तीव्रं प्रवर्द्धयेदग्निं तदा तं
भस्मकं वदेत् ॥ १ ॥ तूट्टदाहश्वासमू-
र्च्छादीन्कृतवैवात्यग्निसम्भवान् । प-
क्वान्नमाशु धात्वादीन् संक्षयन्नाशये-
त्तनुम् । क्षणाद्भुक्तं भवेद्भस्म स रोगो
भस्मकः स्मृतः ॥ २ ॥

मनुष्योके जब कफ क्षीण होजाता है तब पित्त वातके साथ मिलकर अपने स्थानमे पहुँचकर अग्निको अत्यन्त तीव्र करदेता है, तब इसको भस्म अग्नि या भस्मक रोग कहते हैं। यह—तृपा, दाह, श्वास और मूर्च्छादि अग्निके उपद्रवोको करता है। यह भोजनको पचाकर फिर रसरक्तादि धातुओको पचाता है, पश्चात् देहका नाश करता है । इसमे किया हुआ भोजन क्षणभरमे भस्म हो जाता है इसकारण इसको भस्मकरोग कहते हैं ॥ १ ॥ २ ॥

तं भस्मकं गुरुस्निग्धसान्द्रमण्डहिम-
स्थिरैः । अन्नपानैर्नयेच्छान्तिं पित्तघ्ने-
श्च विरेचनैः ॥ ३ ॥

इस भस्मकरोगको भारी, चिकने, गाढे, मॉड, गीतल और काठिन ऐसे अन्नपानोसे और पित्तनाशक विरेचनोसे शमन करे ॥ ३ ॥

अत्युद्धताग्निशान्त्यै माहिषदाधिदुग्ध-
तक्रसर्पीषि । संसेवेत यवागूं समधु-
च्छिष्टां ससर्पिष्काम् ॥ ४ ॥

अत्यन्त बढीहुई अग्निको शान्त करनेके लिए भैसका दही, दूध, तक्र और घृत आदि सेवन करावे अथवा मोम और घीकी बनाई हुई यवागू सेवन करावे ॥ ४ ॥

असकृत्पित्तहरणं पायसं प्रतिभोज-
नम् । श्यामात्रिवृद्धिपक्वं वा पयो दद्या-
द्विरेचनम् ॥ ५ ॥

भस्मकरोगमे बारवार पित्तको शमन करनेवाली औषधि देनी चाहिये, तथा खीरका भोजन कगना

चाहिए और काले निसोतको दूधमे पकाकर विरेचन करनेके लिये देवे ॥ ५ ॥

यत्किञ्चिन्मधुरं सेव्यं श्लेष्मलं गुरुभो-
जनम् । सर्वं तदत्यग्निहितं भुक्त्वा
प्रस्वपनं दिवा ॥ ६ ॥

जितने मधुर, कफकारक और भारी पदार्थ है भस्माग्निमे उन सबका भोजन और दिनमे सोना हितकारक है ॥ ६ ॥

कफे पूर्वं जिते पित्ते मारुते वाऽनलः
समः । समधातौ पचत्यन्नं पुष्ट्या-
युर्बलवर्धनम् ॥ ७ ॥

कफ, पित्त और वातको पहले जीतनेसे समधातु जठराग्निको समान करती है तब अन्नको अच्छे प्र- कारसे पचाती है और पुष्टि तथा आयु और बलको बढानेवाली होजाती है ॥ ७ ॥

मुहुर्मुहुरजीर्णोऽपि भोज्यान्नान्युपहा-
रयेत् । निरिन्धनो रसं लब्ध्वा यथैवा-
न्नेन पाचयेत् ॥ ८ ॥

बारंवार अजीर्ण होनेपर भी रोगीको थोडा २ भोजन अवश्य कराता रहे । कारण यह है कि भोजनके न मिलनेसे जठराग्नि कभी रसको पचाकर त्रिलकुल शांत न होजाय अर्थात् फिर अन्नपचानेमे असमर्थ होकर शरीरको नष्ट न करदेवे ॥ ८ ॥

कोलास्थिमज्जाकल्कस्तु पीतो वाप्यु-
दकेन वै । अचिराद्भिनिहन्त्येष प्रयो-
गो भस्मकं नृणाम् ॥ ९ ॥

घेरकी गुठलीके भीतरकी सीगको जलमे पीसकर पान करनेसे बहुत दिनोंका भस्मकरोग नष्ट होताहै ९

नारीक्षीरेण संयुक्तां पिबेदौदुम्बरीं
त्वचम् । ताभ्यां वा पायसं सिद्धं पिबे-
दत्यग्निशान्तये ॥ १० ॥

गूलरकी छालको खीके दूधमे पीसकर पान कर- नेसे अथवा खीके दूधमे गूलरके छालकी खीर बना- कर अत्यन्त बढीहुई अग्निको शांत करनेके लिये देवे ॥ १० ॥

सिततण्डुलसितकमलं छागक्षीरेण
पायसं सिद्धम् । भुक्त्वा घृतेन पुरुषो
द्वादशदिवसान् बुभुक्षितो न भवे-
त् ॥ ११ ॥

सफेद चावल और सफेद कमल इनको पिसकर
बकरीके दूधमें खीर बनाकर घी मिलाकर बारह
दिनतक भक्षण करे तो इससे भस्मरोग नष्ट हो
जाता है ॥ ११ ॥

विदारीस्वरसं क्षीरे पचेदष्टगुणं
घृतम् । माहिषं जीवनीयेन कल्के-
नात्यग्निनाशनम् ॥ १२ ॥

विदारीकंदका स्वरस आठ सेर, भैसका दूध आठ
सेर, गौका उत्तम घी १ सेर और जीवनीयगणकी
औषधियोंका कल्क १सेर लेवासवको मिलाकर यथा-
विधिसे घृतको सिद्ध करे । यह घृत-अत्यन्त बढी
हुई अग्निको शांत करता है ॥ १२ ॥

इति वंगसेने भापाटीकायां भस्मरोगा-
धिकार संपूर्ण ॥

अथ कृमिरोगनिदान ।



कृमयस्तु द्विधाः प्रोक्ता बाह्याभ्यन्त-
रभेदतः । बहिर्मलकफा सृग्विदृज-
न्मभेदाच्चतुर्विधाः ॥ १ ॥ नामतो
विंशतिविधा बाह्यास्तत्र मलोद्भवाः ।
तिलप्रमाणसंस्थानवर्णाः केशाम्बरा-
श्रयाः ॥ २ ॥ बहुपादाश्च सूक्ष्माश्च
यूकालिख्याश्च नामतः । द्विधा ते को-
ठपिटिकाः कण्डूगण्डान्प्रकुर्वते ॥ ३ ॥

बाह्य (बाहरका) और आभ्यन्तर (भीतरका)
इन भेदोंसे कृमिरोग दो प्रकारका है। बाह्यकृमिरोग
बाहरके मैल, कफ, रुधिर और विष्टोस उत्पन्न होने-
वाला ऐसे चार प्रकारका है और वह नामभेदसे बीस
प्रकारका है, उसमें ऊपरके मैलसे उत्पन्न होनेवाले
कृमियोंको बाह्यकृमि कहते हैं और वे तिलके समान व
वर्णवाले होते हैं, कण्डे और केशोंमें रहते हैं, वे बहुत

पांववाले बहुत सूक्ष्म जूं और लीख नामसे दो प्रकारके
होते हैं दोनों प्रकारके कृमि, कोठ (चकत्ते) पिडिका
(फुल्सी) कण्डू (खुजली) और गांठोंको उत्पन्न
करते हैं ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥

अजीर्णभोजी मधुराम्लसेवी द्रवप्रियः
पिष्टगुडोपभोक्ता । व्यायामवर्जी च
दिवाशयी च विरुद्धभोजी लभते
कृमींस्तु ॥ ४ ॥

अजीर्णमें भोजन करनेसे, मधुर, अम्ल, द्रव
(पतले), पिष्टक (पिट्टी पदार्थ) और गुड आदि पदार्थ
सदैव सेवन करनेसे, कसरत आदिको न करनेसे,
दिनमें सोनेसे और विरुद्ध भोजन करनेसे मनुष्योंके
कृमि रोग उत्पन्न होता है ॥ ४ ॥

माषपिष्टाम्ललवणगुडशाकैः पुरीष-
जाः । मांसमाषगुडक्षीरदाधिशुक्तैः
कफोद्भवाः ॥ ५ ॥ विरुद्धाजीर्णशा-
काद्यैः शोणितोत्था भवन्ति हि ॥ ६ ॥

उडद, पिष्टकपदार्थ, खट्टे, नमकीन पदार्थ, गुड
और शाक इनको सेवन करनेसे मलके कृमि उत्पन्न
होते हैं। मांस, उडद, गुड, दूध, दही और शुक्त
(कांजी विशेष) इनको सेवन करनेसे कफके कृमि
उत्पन्न होते हैं। विरुद्ध भोजन और अजीर्ण (कब्ज)
शाकादिको भक्षण करनेसे रुधिरके कृमि उत्पन्न
होते हैं ॥ ५ ॥ ६ ॥

पेटमें कृमि होजानेके लक्षण ।
ज्वरो विवर्णता शूलं हृद्रोगच्छदर्नं
भ्रमः । भक्तद्वेषातिसाराश्च सज्जातकृ-
मिलक्षणम् ॥ ७ ॥

ज्वर, शरीरका रंग बदल जाना, शूल, हृदयमें
पीडा, वमन, भ्रम, भोजनमें अरुचि और अतीसार
ये लक्षण उदरमें कृमि हो जानेपर होते हैं ॥ ७ ॥

कफादामाशये जाता वृद्धाः सर्पन्ति
सर्वतः । पृथुवर्धमनिभाः केचित्केचि-
द्गण्डपदोपमाः ॥ ८ ॥ रूढधान्याङ्कु-
राकारास्तनुदीर्घास्तथाऽणवः । श्वेता-
स्ताम्रावभासाश्च नामतः सप्तधा तु ते

॥ ९ ॥ अन्त्रादा उदरवेष्टा हृदयादा
महागुहाः। चुरवो दर्भकुसुमाः सुग-
न्धास्ते च कुर्वते ॥ १० ॥ हल्लासमास्य-
स्त्रवणमविपाकमरोचकम् । छर्दिशूल-
ज्वरानाहकाश्र्यश्वयथुपीनसान् ॥ ११ ॥

कफसे कृमि उत्पन्न होकर आमाशयमे बटकर
चारो ओर फैल जाते हैं उनमें कोई मोटे चर्मके
समान, कोई कैचुयेके समान, कोई धान्यके अंकुरके
समान, कोई छोट, कोई बंड, कोई बहुत छोटे, कोई
सफेद और कोई तांबेके समान प्रभाववाले होते हैं।
और वे अन्त्राद, उदरवेष्ट, हृदयाद, महागुह, चुरव,
दर्भकुसुम और सुगन्ध इन नामोंसे सात प्रकारके
होते हैं। ये कुपित होकर उबकाई, मुखमें लारका
गिरना, अन्नका न पचना, अरुचि, वमन, शूल, ज्वर,
आनाह, कृशता, सूजन और पीनमको उत्पन्न करते
हैं ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥

रक्तवाहिशिरास्थाना रक्तजा जन्त-
वोऽणवः । अपादावृतताम्राश्च सौ-
क्ष्म्यात्केचिददर्शनाः ॥ १२ ॥ केशादा
लोमविध्वंसा रोमद्वीपा उदुम्बराः ।
षडेते कुष्ठकर्माणः सहस्रारसमा-
तरः ॥ १३ ॥

रुधिरके बहनेवाली नाडियोंमें रहनेवाले रुधिरसे
उत्पन्न हुए कृमि बहुत बारीक होते हैं, पावरहित,
गोल और तांबेके रंगके समान लाल रंगके होते हैं।
उनमें कोई बहुत छोटे कृमि होते हैं जो कि देखनेमें
नहीं आते उनके केशाद, लोमविध्वंस, रोमद्वीप, उदु-
म्बर, सौरस और मातर ये छ. नाम हैं ये विशेषकर
कुष्ठरोगको करते हैं ॥ १२ ॥ १३ ॥

पक्काशये पुरीषोत्था जायन्तेऽधो वि-
सर्पिणः। संवृद्ध्याश्च भवेयुश्च ते यदा-
माशयोन्मुखाः ॥ १४ ॥ तदारयो-
द्गारनिःश्वासविङ्गन्धानुविधायिनः ।
पृथुवृत्ततनुस्थूलाः श्यावाः पीताः
सितासिताः ॥ १५ ॥ ते पञ्च नामभिः
ख्याताः ककेरुकमकेरुकाः। सौसुरा-

दाः सशूलाख्या लेलिहा जनयन्ति च
॥ १६ ॥ विड्भेदशूलविष्टम्भकाश्र्यपा-
रुण्यपाण्डुताः। रोमहर्षाग्निसदनगुद-
कण्डूर्विमार्गगाः ॥ १७ ॥

पक्काशयमे विष्टामे कृमि उत्पन्न होकर गुदाके मार्गसे
बाहर निकलते हैं। जयवे अधिक बटजाते हैं तब
आमाशयमे ऊपरको मुँह करके विचरण करनेसे उन
मनुष्यके तकार और श्वासमें विष्टाके समान दुर्गन्ध
आती हैं वे कृमि लम्बे, गोल, छोटे, मोटे, धूमरंगके
पीले, सफेद और काल होते हैं। ककेरुक, मकेरुक,
सौसुराद, शूलान्य और लेलिहा ये उनमें नाम हैं।
यह विमार्गगामी होनेपर मलभेज, शूल, विष्टम्भ,
कृशता, कर्कशता, पाण्डुता, रोमाच, मन्दाग्नि और
गुदामें खुजलीको उत्पन्न करते हैं ॥ १४ ॥ १५ ॥
॥ १६ ॥ १७ ॥

चिकित्सा ।

तेषामन्यतमं वैद्यो जिघांसुः स्निग्ध-
मातुरम् । सुरसादिविपकेन सर्पिपा
वाऽन्नमादिशेत् ॥ १८ ॥ विरेचयेत्ती-
क्ष्णतमैर्योगैरास्थापयेद्वि च ॥ १९ ॥

अब कृमिरोगकी चिकित्सा कहते हैं। उन दोनों
प्रकारके कृमिरोगको नष्ट करनेके लिये प्रथम रोती-
को स्निग्ध करे, फिर सुरसादि औषधियोंके पकाये
हुए घीके साथ अन्न दवे। अथवा तीक्ष्ण विरेचन
और आस्थापन वस्तिप्रयोग करे ॥ १८ ॥ १९ ॥

विडङ्गतण्डुलव्योषशिग्रूभिर्मरिचैश्च
च । तक्रसिद्धा यवागूः स्यात्कृमिघ्नी
संसुवर्चिका ॥ २० ॥

चाचविडंगके चावल, त्रिकुटा, सहिजना और
काली मिरच, तथा तक्र इनके द्वारा सिद्ध की हुई यवा-
गूमें सजी डालकर पीवे। यह कृमिनाशक योग है २०
विडङ्गव्योषसंयुक्तमन्नमण्डं पिबेन्नरः।
दीपनं कृमिनाशाय वह्निश्च कुरुते
भृशम् ॥ २१ ॥

भातके मोडमें वायविडंग और त्रिकुटेका चूर्ण
डालकर पान करे। यह प्रयोग दीपन, कृमिनाशक
और जठराग्निका बढ़ानेवाला है ॥ २१ ॥

सक्षौद्रः कृमिजिद्धिः पीतः कृमिह-
रशियुजश्च काथः । पीतं मूत्रमजा-
या अन्थिकचूर्णान्वितं वापि ॥ २२ ॥

वायविडंग और सहिजनेके काथमें शहद डालकर पीवे अथवा पीपलामूलका चूर्ण बकरीके मूत्रके साथ पानकरे तो कृमिरोग नष्ट होता है ॥ २२ ॥

पुष्कराहास्थिनिर्यासं कृमिघ्राद्धेन
संयुतम् । लिह्याद्धर्मस्थितः प्रातः
सर्वकृमिनिवारणम् ॥

पोहरकरमूल और अस्थिनिर्यास ये समान भाग और वायविडंग आधा भाग लेवे । सबको एकत्र मिलाकर प्रातःकाल धूपमें रखकर सेवन करे तो सब प्रकारके कृमि नष्ट होते हैं ॥

पारशीयवानी पीता पर्युषित-
वारिणा प्रातः । गुडपूर्वा कृमिजालं-
कोष्ठगतं पातयत्याशु ॥ २३ ॥

खुरासानी भजवाचनको वासी जलमें पीसकर गुड़ मिलाकर पान करे तो कोष्ठगत सम्पूर्ण कृमि नष्ट हो जाते हैं ॥ २३ ॥

पारिभद्रकपत्रोत्थं रसं क्षौद्रयुतं पि-
बेत् । किंशुकस्य रसं वापि धतूरस्या-
पि वा रसम् ॥ २४ ॥

नीमके पत्तोंके रसमें शहद डालकर पीनेसे अथवा ढाकके पत्तोंके रसमें शहद डालकर पीनेसे किंवा धतूरेके रसको पान करनेसे कृमि नष्ट होते हैं ॥ २४ ॥

मुस्ताखुपर्णीफलदारुशिशूकाथः स-
कृष्णाकृमिशत्रुकल्कः । मार्गद्वयेना-
पि चिरप्रवृत्तान्कृमीन्निहन्ति कृमि-
जांश्च रोगान् ॥ २५ ॥

नागरमोथा, मूसाकानी, त्रिफला, देवदारु और सहिजनेके काथमें पीपल और वायविडंगका कल्क मिलाकर पान करनेसे दोनों मार्गसे प्रवृत्त हुए कृमि और कृमिसे उत्पन्न हुए रोग नष्ट होते हैं ॥ २५ ॥

आखुपर्णीदलैः पिष्टैः पिष्टकेन तु
पूपिकाः । जग्ध्वा सौवीरकं चालुपिबे-
त्कृमिहरं परम् ॥ २६ ॥

मूसाकानीके पत्तोंको पीसकर गेहूँके आटेमें मिला-
कर पूरी बनाकर खाय और ऊपरसे सौवीरनामक
कांजी पीवे तो सब प्रकारके कृमिरोग नष्ट हो जाते
हैं ॥ २६ ॥

पलाशबीजस्वरसं पिबेद्वा क्षौद्रसंयु-
तम् । पिबेत्तद्वीजकल्कं वा तत्रेण
कृमिनाशनः ॥ २७ ॥

ढाकके बीजोंके स्वरसमें शहद मिलाकर पान करनेसे अथवा ढाकके बीजोंको तक्रम पीसकर पान करनेसे कृमिरोग नष्ट होता है ॥ २७ ॥

लिह्यात्क्षौद्रेण वैडङ्गं चूर्णं कृमिविना-
शनम् । सुरसादिगणं वापि सर्वथैवो-
पयोजयेत् ॥ २८ ॥

वायविडंगके चूर्णको शहदमें मिलाकर चाटनेसे सब कृमि नष्ट होते हैं अथवा सम्पूर्ण सुरसादिगणकी औषधियोंको इसी विधिसे सेवन करे ॥ २८ ॥

प्रत्यहं कटुकं तिक्तं भोजनश्च हितं
भवेत् । कृमीणां नाशनं रुच्यमग्नि-
सन्दीपनं परम् ॥ २९ ॥

नित्य कटु और तिक्तपदार्थोंका भोजन कृमिरोगमें हितकारी है तथा कृमिरोगनाशक, रुचिकारक और अग्निको दीपन करनेवाला है ॥ २९ ॥

त्रिफलादिघृत ।

फलत्रयं वचा दन्तीत्रिवृत्कम्पिप्लवङ्गैः
समैः । सिद्धं सर्पिर्गवां मूत्रं पीतं
कृमिविनाशनम् ॥ ३० ॥

त्रिफला, वच, दन्ती, निसोत और कबीला इन सब औषधियोंको समान भाग लेकर काथ और कल्क बनाकर उसके द्वारा घृतको सिद्ध करे । यह त्रिफला-दिघृत-कृमिरोगको नष्ट करता है ॥ ३० ॥

विडंगादिघृत ।

त्रिफलायास्त्रयः प्रस्था विडङ्गं
प्रस्थमेव च । दीप्यश्च दशमूलश्च
लाभतः समुपाहरेत् ॥ ३१ ॥ पादशोषे
जलद्रोणे पूते सर्पिर्विपाचयेत् । प्रस्थो-

न्मितं सिन्धुयुतं तत्परं कृमिनाशनम् ॥ ३२ ॥ विडङ्गघृतमित्येतल्लेह्यं शर्करया सह ॥ सर्वकृमीन् प्रणुदति वज्रं मुक्तमिवासुरान् ॥ ३३ ॥

त्रिफलेकी तीनो ओषधि ३ प्रस्थ, वायविडंग १ प्रस्थ और दीपनीय तथा दशमूलकी जितनी औषधिये मिल सके उतनी ही लेवे फिर सबको मिलाकर एकट्रोण जलमें पकावे, जब चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे फिर इसमें घी १ प्रस्थ और सैधानमक १ प्रस्थ डालकर घृतको सिद्ध करे । यह विडंगघृत-कृमिनाशक है, इसमें खांड मिलाकर सेवन करे । यह सब प्रकारके कृमिरोगोका नष्ट करनेवाला है ॥ ३१-३३ ॥

पिप्पलादिचूर्ण ।

पिप्पली पिप्पलीमूलं सैन्धवं कृष्णजीरकम् । चव्यचित्तकतालीसपत्रकं नागकेशरम् ॥ ३४ ॥ एषां द्विपलिकान्भागान्पञ्च सौवर्चलस्य च । मरिचाज्जाजिशुण्ठीनामेकैकस्य पलं पलम् ॥ ३५ ॥ दाडिमात्कुडवञ्चैव द्वे पले चाम्लवेतसात् । सर्वमेकत्र संधृत्य योजयेत्कुशलो भिषक् ॥ ३६ ॥ पिप्पल्याद्यमिदं ख्यातं नष्टवह्नेः प्रदीपनम् । अर्शासि ग्रहणीगुल्ममुदरं सभगन्दरम् ॥ ३७ ॥ कृमिकंडूरुचिहरं सुरयोष्णोदकेन वा । नातः परतरं किञ्चिदामशोथनिषूदनम् ॥ ३८ ॥

पीपल, पीपलामूल, सैधानमक, कालाजीरा, चव्य, चीता, तालीसपत्र, तेजपात और नागकेशर, ये प्रत्येक ओषधि आठ आठ तोले लेवे, कालानमक २० तोले, कालीमिरच, जीरा और सौंठ ये प्रत्येक ओषधि चार तोले, अनार दाना एक कूडवपारेमाण और अमलवेत ८ तोले लेवे, इन सबको एकत्र पीसकर चूर्ण कर लेवे। यह पिप्पल्यादि-चूर्ण-अभ्रिको दीपन करनेवाला, ववासीर, संग्रहणी, गुल्म, उदररोग, भगन्दर, कृमि, कण्ड और अरुचिको नष्ट करनेवाला है। इसको

मंदोष्ण जलके साथ अथवा सुगके साथ सेवन करे। इससे उत्तम आम और सूजनको हरनेवाली अन्य ओषधि नहीं है ॥ ३४-३८ ॥

सावित्रवटक ।

पलङ्कषापले द्वे तु कृष्णायसपलद्भयम् । पथ्यामृताक्षधानीणां, पृथगेकैकशः पलम् ॥ ३९ ॥ पृतीकचव्यव्योपाभ्रिकारवीकृमिनाशनः । चृणितैरर्धपलिकैस्तिरलतैलं पलद्भयम् ॥ ४० ॥ त्रिफलाया रसप्रस्थे खंडं प्रस्थयुगं पचेत् । दावीप्रलेपात्पाकश्च चातुर्जातकसंयुतम् ॥ ४१ ॥ सावित्रवटका ह्येते यथाभ्रिवलभक्षिताः । कृमिकोष्ठाभ्रिदौर्बल्यशोथगुल्मोदरव्रणान् ४२ कामलापाण्डुरोगाशौ भगन्दरगदज्वरान् । निहन्युर्वा तु सत्रद्धा वयःस्थैर्यबलप्रदाः ॥ ४३ ॥ वातप्रमेहशमनाश्चक्षुष्याः पुष्टिवर्द्धनाः । भवन्त्यतिस्निग्धभुजां वातातपनिषेविणाम् ॥ ४४ ॥

ढाकके बीज ८ तोले, काले लोहेकी भस्म आठ तोले, हरड, गिलोय, बहेडा और आमला ये प्रत्येक चार २ तोले, दुर्गधकरंज, चव्य, सौंठ, मिरच, पीपल, चीता, काला जीरा और वायविडंग ये प्रत्येक दो दो तोले, तिलका तेल ८ तोले, त्रिफलेका रस १ प्रस्थ और खांड दो प्रस्थ लेवे, सबको एकत्र मिलाकर पकावे । जब करछीसे चिपकने लगे तब दालचीनी, इलायची, तेजपात और नागकेशर इनका चूर्ण मिलाकर बड़े बना लेवे इनको "सावित्रवटक" कहते हैं। अभ्रिका वलावल विचारकर इनको भक्षण करे । यह सावित्रवटक कृमि, कोष्ठ, अभ्रिकी मंदता, सूजन, गुल्म, उदररोग, व्रण, कामला, पाण्डुरोग, ववासीर, भगन्दर और ज्वररोगको नष्ट करते है । तथा अवस्था, स्थिरता और बलको उत्पन्न करते है । वातको शमन तथा प्रमेहको नष्ट करते हैं, नेत्रोको हितकारी और पुष्टिकारक है । इनको सेवन करनेवाला मनुष्य

अत्यन्त स्निग्ध आहार, वायु और धूपका सेवन
करे ॥ ३९-४४ ॥

रसेन्द्रेण समायुक्तो रसो धनूरपत्रजः ।
ताम्बूलपत्रजो वापि लेपनं यूकना-
शनम् ॥ ४५ ॥

धतूरेके पत्तोंके रसमें पारेको खरल करके लेप
करनेसे अथवा पानके रसमें पारेको खरल कर लेप
करनेसे जुंये नष्ट हो जाती है ॥ ४५ ॥

मशकहरधूप ।

ककुभकसुमं विडङ्गं लाङ्गलीं भल्ला-
तकं तथोशीरम् । श्रीवेष्टकं सर्जरसं
मदनञ्चैवाष्टमं दद्यात् ॥ ४६ ॥ एष
सुगन्धो धूपो मशकानां नाशनः
श्रेष्ठः । शय्यासु मत्कुणानां शिर-
सिच वस्त्रे च यूकानाम् ॥ ४७ ॥

कोहके फूल, वायविडंग, कलिहारी, भिलोवे, खस,
श्रीवेष्ट (लोवान), राल और मैनफल इनकी धूप बना-
कर देनेसे मच्छरोंका नाश होता है । इस धूपको
खाटमें देनेसे खटमल दूर हो जाते हैं । सिर और
कपड़ोमें देनेसे जुंये नष्ट हो जाती हैं ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

भण्डी पिष्टाऽऽरनालेन गोमूत्रेणाभि-
शिल्लकाः । कुनटी कटुतैलेन योगा
यूकापहास्त्रयः ॥ ४८ ॥

मजीठको कॉजीमें पीसकर गिलारसको, गोमूत्रमें
पीसकर और मैनसिलको कड़वे तेलमें पीसकर लेप
करनेसे जुंये नष्ट हो जाती है । यह तीनों प्रत्येक
जुओंको हरनेवाले हैं ॥ ४८ ॥

भुजंगादिनाशकधूप ।

लाक्षाभल्लातकश्च श्रीवासः श्वेताऽ-
पराजिता । अर्जुनस्य फलं पुष्पं वि-
डङ्गं सर्जगुग्गुलुः ॥ ४९ ॥ एभिः कृ-
तेन धूपेन शाम्यन्ति नियतं गृहे ।
भुजङ्गमूषका दंशा घुणामशकमत्कु-
णाः ॥ ५० ॥

लाख, भिलोवे, श्रीवास, सफेद अपराजिता, अर्जु-
नके फल और फूल, वायविडंग, राल और गुग्गुलु इन
सबकी धूप बनाकर देनेसे घरमें रहनेवाले सर्प, मूसे,
डांस, घुन, मच्छर और खटमल भाग जाते हैं ४९-५० ॥

विडंगतैल ।

सविडङ्गं गन्धाशिलया सुसिद्धं सुर-
भीजलेन कटुतैलम् । निखिला नय-
ति विनाशं लिख्यासहिताश्च वै
यूकाः ॥ ५१ ॥

वायविडंग और गन्धक इनके कल्कके द्वारा
गोमूत्र मिलाकर कड़वे तेलको पकावे । यह तैल-सब
प्रकारकी जुओं और लीखोंको दूर करता है ॥ ५१ ॥


अपथ्य ।

क्षीराणि मांसानि घृतानि चैव दधी-
नि शाकानि च पर्णवन्ति । समाष-
तोयान्मधुरान्रसांश्च कृमीञ्जियांसुः
परिवर्जयेत् ॥ ५२ ॥

कृमिरोगी दूध, मांस, घृत, दही, पत्रशाक, उड़द,
गीतलजल और मधुररस इन सब पदार्थोंको कृमि-
रोगमें त्याग देवे ॥ ५२ ॥

इति श्रीवंगसेने भापाटीकायां कृमिरोगा-
धिकार समाप्त ।

अथ पाण्डुरोग ।



पाण्डुरोगाः स्मृताः पञ्च वातपित्तक-
फैस्त्रयः । चतुर्थः सन्निपातेन पञ्चमो
भक्षणान्मृदः ॥ १ ॥

वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज ऐसे
पाण्डुरोग चार प्रकारका है और पाचवां मृत्तिकाको
भक्षण करनेसे होता है ॥ १ ॥

पाण्डुरोगके पूर्वलक्षण ।

पिपासारुचिहल्लासैरुरुदाहोऽङ्गौ-
रवम् । रक्तलोचनता तस्य पूर्वरू-
पस्य लक्षणम् ॥ २ ॥

तृपाका अधिक लगना, अरुचिका होना, उबकाईका
आना, जांघोमें दाहका होना, शरीरमें भारीपन
और नेत्रोंमें लालीका होना ये पाण्डुरोगके पूर्वलक्षण
जानने ॥ २ ॥

पाण्डुरोगके उत्पन्न होनेके कारण ।
यवायमम्लं लवणानि मद्यं मृदं दि-
वास्वप्नमतीव तीक्ष्णम् । निषेव्य-

माणस्य समेत्य रक्तं कुर्वन्ति दोषा-
स्त्वचि पाण्डुताश्च ॥ ३ ॥

अत्यन्त मैथुन करनेसे, अधिकतर खट्टे पदार्थों, अत्यन्त नमकीन व खारी पदार्थोंको खानेसे, मदिरा-को पीनेसे, मट्टीको खानेसे, दिनमें सोनेसे और बहुत तक्षिण पदार्थोंको सेवन करनेसे वातादि तीनो दोष कुपित होकर रुधिरको दूषित करके शरीरकी त्व-चाको पाण्डुवर्ण (पीलेरंगकी) करदेते हैं ॥ ३ ॥

पाण्डुरोगका पूर्वरूप ।

त्वक्स्फोटानिष्ठीवनगात्रसादो मृद्भ-
क्षणभ्रक्षणकूटशोथाः । विण्मूत्रपीत-
त्वमथाविपाको भविष्यतस्तस्य पुर-
स्तराणि ॥ ४ ॥

शरीरकी त्वचाका फटना, वारंवार थूकना, देहमें ग्लानि, मृत्तिकाभक्षण करनेकी इच्छा, आंखें सूजना, मलमूत्रका पीला होना और भोजनका नहीं पचना ये लक्षण पाण्डुरोग उत्पन्न होनेसे पहले होते हैं ॥४॥

वातजपाण्डुरोगके लक्षण ।

त्वङ्मूत्रनयनादीनां रुक्षकृष्णारुणा-
भता । वातपांड्वामये कम्पतोदाना-
हभ्रमादयः ॥ ५ ॥

वातजपाण्डुरोगमें त्वचा, मूत्र, मल और नेत्रादि रूखे, काले और लाल हों, तथा कंप, तोडने सरीखी पीडा, आनाह और भ्रमादिक उपद्रव होते हैं ॥५॥

पित्तजपाण्डुरोगके लक्षण ।

पीतमूत्रशकृन्नेत्रो दाहतृष्णाज्वरा-
न्वितः । भिन्नविट्कोऽतिपीताभः
पित्तपांड्वामयी नरः ॥ ६ ॥

पित्तजपाण्डुरोगमें मूत्र, मल और नेत्रादि पीले हों, दाह, तृषा और ज्वर हो, मल पतला और शरीरकी प्रभा अत्यन्त पीली ये लक्षण होते हैं ॥ ६ ॥

कफजपाण्डुरोगके लक्षण ।

कफप्रसेकश्वयथुतन्द्रालस्यातिगौर-
वः । पांडुरोगी कफाच्छुक्त्वङ्मूत्रन-
यनाननैः ॥ ७ ॥

कफज पाण्डुरोगमें मुखसे वारंवार कफका निक-लना, मूजन, तन्द्रा, आलस्य, शरीरमें अत्यन्त भारी-पन और त्वचा, मूत्र, मल, नेत्र तथा मुख ये सब सफेद होते हैं ॥ ७ ॥

सर्वान्नसेविनः सर्वे दुष्टा दोषास्त्रि-
दोषजम् । त्रिदोषलिङ्गं कुर्वन्ति पां-
डुरोगं सुदुस्सहम् ॥ ८ ॥

तीनो दोषोंको कुपित करनेवाले पदार्थोंको सेवन करनेसे तीनो दोष कुपित होकर सर्व लक्षणोयुक्त दुःसाध्य पाण्डुरोगको उत्पन्न करते हैं ॥ ८ ॥

असाध्यपाण्डुरोगके लक्षण ।

ज्वरारोचकहृल्लासछर्दितृष्णाक्लमा-
न्वितः । पांडुरोगी त्रिभिर्दोषैस्त्या-
ज्यः क्षीणो हतेन्द्रियः ॥ ९ ॥

ज्वर, अरुचि, हृल्लास (उबकाई), वमन, तृषा और ग्लानि इन उपद्रवोंसे युक्त, क्षीण और जिसकी इंद्रिये शिथिल हो गई हो एवं त्रिदोषज ऐसा पाण्डु-रोगी त्यागने योग्य है ॥ ९ ॥

मृत्तिकाभक्षणजन्यपाण्डुरोग ।

मृत्तिकादनशीलस्य कुप्यत्यन्यतमो
मलः । कषाया मारुतं पित्तमूषरा
मधुरा कफम् ॥ १० ॥ कोपयेन्मृद्भ-
सादींश्च रौक्ष्याद्भुक्तश्च रूक्षयेत् । पू-
यत्यविपक्वैव स्रोतांसि निरुणद्धि
च ॥ ११ ॥ इन्द्रियाणां बलं हत्वा
तेजो वीर्यौजसी तथा । पांडुरोगं
करोत्याशु बलवर्णाग्निनाशनम् ॥१२॥

जो मनुष्य सबैव मिट्टी भक्षण करता है उसके वातादि दोष कुपित होते हैं । उसमें कपैली मृत्तिकाको भक्षण करनेसे वात कुपित होती है, खारी मिट्टीको भक्षण करनेसे पित्त कुपित होता है और मीठी मिट्टीको खानेसे कफ कुपित होता है । फिर वही भक्षण की हुई मृत्तिका रसादि धातुओंको कुपित करके अपने रूखेपनसे भक्षण किये हुए भोजनको रूखा कर देती है और आप बिना ही पके रस रक्तादि बढ़नेवाली नाडियोंके स्रोतोंको बंदकर

देती है, पश्चान् वह इन्द्रियोंकी शक्तिको नष्ट करके तेज, वीर्य और ओजको नष्ट करदेती है, फिर बल, वर्ण और अग्निनाशक पाण्डुरोगको उत्पन्न करती है ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥

विशेष लक्षण ।

शूनाक्षिकूटगण्डभ्रूः शूनपान्नाभिमेहनः । कृमिकोष्ठोऽतिसार्येत मलं सासृक्कफान्वितम् ॥ १३ ॥

नेत्र, गाल, भौएँ, पाँव, नाभि और लिंग इनपर सूजनका होना, कोठेमें कीड़ोका पडजाना, कफ और रुधिरंस मिला हुआ बारबार मलका उतरना ये पाण्डुरोगके विशेष लक्षण है ॥ १३ ॥

असाध्यलक्षण ।

पाण्डुरोगश्चिरोत्पन्नः खरीभूतो न सिध्यति । कालप्रकर्षाच्छूनांगो यो वापीतानि पश्यति ॥ १४ ॥ बहुलं विट्सुहरितं सकफं योऽतिसार्यते । दीनः स्वेदादिदिग्धाङ्गश्छर्दिमूर्च्छानृडान्वितः ॥ १५ ॥ सनास्त्यसृक्क्षयाद्यस्तु पाण्डुः श्वेतत्वमाप्नुयात् । पाण्डुदन्तनखो यस्तु पाण्डुनेत्रश्च यो नरः । पाण्डुसंघातदर्शी च पाण्डुरोगी विनश्यति १६

बहुत दिनोंका उत्पन्न हुआ पाण्डुरोग अत्यन्त पुराना होनेसे असाध्य होजाता है । जिसका शरीर सूज जाय और जिसको सम्पूर्ण पदार्थ पीले ही पीले दिखाई देवे, वह भी असाध्य होता है । जिसके कफमिश्रित, बहुतसा और हरे रंगका मल उतरे वह भी असाध्य जानना । अथवा जो मनुष्य दीन हो जाय तथा जिसका शरीर पसीने आदिसे व्याप्त हो वमन, मूर्च्छा और तृपायुक्त हां वह भी पाण्डुरोगी असाध्य जानना । रुधिरके क्षय होनेसे जिसका शरीर पीला या सफेद पडगया हो और जिसके दाँत, नख और नेत्र पीले होगये हो तथा सम्पूर्ण संसारके पदार्थोंको पीलाही देखे वह पाण्डुरोगी अवश्य नष्ट हो जाता है ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥

अन्तेषु शूनं परिहीनमध्यं म्लानं तथा न्तेषु च मध्यशूनम् । गुदे च शोफ-

स्यथ मुष्कयोश्च शूनं प्रताम्यंतमसंज्ञकल्पम् ॥ १७ ॥

जिसके हाथ, पाँव और शिरमें सूजन हो और मध्यभाग दुबला हो ऐसा पाण्डुरोगी अथवा जिसके मध्य शरीरमें सूजन, हाथ, पाँव, शरीर यह कृश हों और गुदा, लिंग व अंडकोषमें सूजन हो, तो ऐसे पाण्डुरोगीको वैद्य त्याग देवे ॥ १७ ॥

विवर्जयेत्पाण्डुकिं यशोऽर्थी तथतिसारज्वरपीडितश्च ॥ १८ ॥

यशकी इच्छा करनेवाला वैद्य अतीसार और ज्वरसे पीडित पाण्डुरोगीको भी त्याग देवे ॥ १८ ॥

चिकित्सा ।

साध्यश्च पाण्ड्वामयिनं समीक्ष्य स्निग्धं घृतेनोर्ध्वमधश्च शुद्धम् । सम्पादयेत्क्षौद्रघृतप्रगाढैर्हरीतकीचूर्णमयैः प्रयोगैः । पिबेद्घृतं वा रजनीविपक्वं यत्रैफलं तित्तकमेव चापि ॥ १९ ॥

प्रथम पाण्डुरोगीको साध्य देखकर पश्चात् घृतसे स्निग्ध करके वमन और विरेचनके द्वारा शुद्ध करे । फिर हरडके चूर्णमें शहद और घी मिलाकर सेवन करावे, एव हल्दीके कल्कके द्वारा सिद्ध किया हुआ अथवा त्रिफलेके द्वारा किम्बा तित्त पदार्थोंके द्वारा सिद्ध किया हुआ घृतपान करावे ॥ १९ ॥

विरेचनद्रव्यकृतं पिबेद्वा योगांश्च विरेचनिकान्घृतेन ॥ २० ॥

अथवा विरेचक औषधियोंको घृतके साथ पीवे, किम्बा विरेचन औषधियोंके द्वारा सिद्ध किये हुए घृतको पान करे ॥ २० ॥

विधिः स्निग्धोऽथ वातोत्थे तित्तः शीतस्तु पैत्तिके । श्लैष्मिके कटु रूक्षोष्णः कार्यो मिश्रस्तु मिश्रके ॥ २१ ॥

वातज पाण्डुरोगमें स्निग्ध क्रिया, पित्तज पाण्डुरोगमें तित्त और शीतल क्रिया, कफज पाण्डुरोगमें कटु रूक्ष और उष्णक्रिया एवं मिश्रित पाण्डुरोगमें मिश्रित चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २१ ॥

दशमूलादिकाथ ।

द्विपञ्चमूलीकथितं सविश्वं कफात्मके पाण्डुगदे पिबेत्तत् । ज्वरेऽतिसारे

श्वयथौ ग्रहण्यां श्वासेऽरुचौ कण्ठ-
हृदामयेषु ॥ २२ ॥

दशमूल और सोठ इनका काथ बनाकर कफज पाण्डुरोगमे पीवे । यह-ज्वर, अतीसार, सूजन, संग्रहणी, श्वास, अरुचि, कंठ और हृदयरोगको नष्ट करता है ॥ २२ ॥

लौहादिमोदक ।

अयत्तिलत्र्यूषणकोलभागैः सर्वैः समं
माक्षिकधातुचूर्णम् । तैर्मोदकः क्षौद्र-
युतः सुभुक्तः पाण्ड्वामये दूरगतेऽपि
शस्तः ॥ २३ ॥

लोहेकी भस्म, तिल, सोठ, मिरच और पीपल प्रत्येक औपधि एक २ तोला लेवे और सबके बराबर शुद्ध सोनामाखीका चूर्ण लेवे । सबको गृहदमे मिलाकर मोदक बनावे । यह मोदक बहुत पुराने पाण्डुरोगको नष्ट करते है ॥ २३ ॥

दहनाजमोदसैन्धवनागरमरिचाम्ल-
तक्रेण । सताहादग्निबलं पाण्डुशो-
वै विमर्दनं परमम् ॥ २४ ॥

चीता, अजमोद, सैधानमक, सोठ और काली मिरच इनका चूर्ण करके खट्टे मट्टके साथ सात दिन तक अग्निका बलाबल विचारकर सेवन करे तो पाण्डुरोग नष्ट होता है ॥ २४ ॥

सप्तरात्रं गवांमूत्रे भावितं चाप्ययो-
रजः । पाण्डुरोगप्रशान्त्यर्थं पयसा च
पिवेन्नरः ॥ २५ ॥

लोहेके चूर्णको सात दिनतक गोमूत्रमे भावना देकर पश्चात् दूधके साथ पान करे तो पाण्डुरोग नष्ट होता है ॥ २५ ॥

गोमूत्रसिद्धमण्डूरचूर्णं सगुडमभ्यसेत् ।
पाण्डुरोगं जयेत्सर्वं पक्तिशूलश्च
दारुणम् ॥ २६ ॥

मण्डूरको गोमूत्रमें शुद्ध करके गुड मिलाकर सेवन करे तो सब प्रकारके पाण्डुरोग नष्ट होते है और दारुण परिणामगूल भी नष्ट होता है ॥ २६ ॥

अयोमलन्तु सन्तप्तं भूयो गोमूत्रसा-

धितम् । मधुसर्पियुतं लीढा पाण्डुरोगी
सुखी भवेत् ॥ २७ ॥ दीपनं चाग्नि-
जननं शोथपाण्ड्वामयापहम् । कल्या-
णकाह्वयं दद्याद्भक्षयेद्वा गुडं नरः ॥ २८ ॥

पुराने लोहेके किट्टको वारंवार आगमे तपाकर वारंवार गोमूत्रमें बुझावे, फिर गृहद और घीम मिलाकर सेवन करे तो पाण्डुरोगी सुखी होता है । यह-दीपन, अग्निजनक, सूजन और पाण्डुरोगको नष्ट करनेवाला है । अथवा कल्याणगुडको सेवन करनेसे भी उक्त फल होता है ॥ २७ ॥ २८ ॥

मृत्तिकां भावितां दद्यात्तुल्यां निम्ब-
रसेन वा । वार्त्ताक्या कटुरोहिण्या
गोमूत्रेण च भावयेत् ॥ २९ ॥
मृद्वेषकरणार्थन्तु भिषक् पश्चान्नियोज-
येत् ॥

मृत्तिकाको बराबरके नीमके रसमे भावना देकर भक्षण करे, अथवा कटेरी और कुटकीको गोमूत्रमे भावना देकर भक्षण करे । शरीरको मृदु करनेके लिये यह औपधि पीछेसे भक्षण करनी चाहिए ॥ २९ ॥

मूर्वाद्यघृत ।

मूर्वात्तिका निशायासकृष्णाचन्दन
पर्पटैः । त्रायन्तीवत्सभूनिम्बपटो-
लाम्बुददारुभिः ॥ ३० ॥ अक्षमात्रैर्वृत-
प्रस्थं सिद्धं क्षीरचतुर्गुणे । पाण्डुता-
ज्वरविस्फोटशोफाशौरक्तपित्तनुत् ३१

मूर्वा, कुटकी, हल्दी, जवासा, पीपल, चन्दन, पित्तपापडा, त्रायमाण, इन्द्रजौ, चिरायता, पटोल-पात, नागरमोथा और देवदारु प्रत्येक औपधि एक २ तोला लेकर कलक बनावे, फिर इस कलक और चौगुने दूधके द्वारा १ प्रस्थ (६४ तोले) घृतको सिद्ध करे । यह मूर्वाद्यघृत-पाण्डुता, ज्वर, विस्फोटक, सूजन, बवासीर और रक्तपित्तको नष्ट करता है ॥ ३० ॥ ३१ ॥

कटुकाद्यघृत ।

कटुकां रोहिणीं मुस्तां हरिद्रां वत्स-
कत्वचम् । पटोलं चन्दनं मूर्वा त्राय-

माणं दुरालभाम् ॥ ३२ ॥ सपिप्प-
लीं कर्कटिकां पूतिकं देवदारु च ।
पिष्टाक्षमात्रं तैः सर्पिः प्रस्थं क्षीराढ-
के पचेत् ॥ ३३ ॥ रक्तपित्तं ज्वरं दाहं
श्वयथुं सभगन्दरम् । अशार्स्यसृ-
ग्दरश्चैव हन्याद्विस्फोटकांस्तथा ॥ ३४ ॥

कुटकी, नागरमोथा, हल्दी, कुडेकी छाल, पटो-
लपात, चन्दन, मूर्वा, त्रायमाण, धमासा, पीपल,
काकडाशृगी, पूतिकरंज और देवदारु, प्रत्येक औषधि
१६-१६ माझे लेकर कल्क बनाकर एक आठक
प्रमाण दूधके साथ एकप्रस्थ घीको सिद्ध करे । यह
घृत—रक्तपित्त, ज्वर, दाह, सूजन, भगन्दर, ववा-
सीर, रक्त प्रदर और विस्फोटकरोगको नष्ट करता
है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

व्योषादिघृत ।

व्योषं विल्वं द्वे रजन्यौ त्रिफला द्वे
पुनर्नवे । मुस्ता चायोरजः पाठा वि-
डङ्गं देवदारु च ॥ ३५ ॥ वृश्चिकाली
च भार्ङ्गी च सक्षीरैस्तैः शृतं घृतम् ।
सर्वान्प्रशमयत्याशु विकारान्मृत्ति-
कोद्भवान् ॥ ३६ ॥

त्रिकुटा, वेलगिरी, हल्दी, दारुहल्दी, त्रिफला
दोनों प्रकारके पुनर्नवे, नागरमोथा, लोहेका चूर्ण,
पाठ, वायविडंग, देवदारु, विछाटी और भारंगी
इनके कल्कके द्वारा चौगुनेदूधमे घृतको सिद्ध करे ।
यह व्योषादिघृत—सब प्रकारके मृत्तिकासे उत्पन्न
हुए विकारोको नष्ट करता है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

देवदारुव्यादिघृत ।

देवद्रुत्रिफलाव्योषवृश्चिकालीह्ययो-
रजः । हरिद्रे चित्रकं भार्ङ्गी पाठे द्वे
च पुनर्नवे ॥ ३७ ॥ विडङ्गं पिपल्ली
लोभ्रं पचेन्मूत्रचतुर्गुणे । घृतं तत्पा-
ण्डुहृद्रोगग्रहणीगुददोषनुत् ॥ ३८ ॥

देवदारु, त्रिफला, त्रिकुटा, विछाटी, लोहेका चूर्ण,
हल्दी, दारुहल्दी, चीता, भारंगी, पाठ, सोठ और
विपखपरा, वायविडंग, पीपल और लोष, इनके

कल्कके द्वारा चौगुने गोमूत्रमें घृतको सिद्ध करे। यह
घृत—पाण्डुरोग, हृदयरोग, संग्रहणीरोग और गुद
रोगको नष्ट करता है ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

रजनीत्रिफलाघृत ।

रजनीकाथकल्काभ्यां घृतं पाण्डुाम-
यापहम् । त्रिफलाकल्कगोमूत्रसिद्धं
वा माहिषं घृतम् ॥ ३९ ॥

हल्दीके काथ और कल्कके द्वारा घृतको सिद्धकरके
सेवन करनेसे पाण्डुरोग नष्ट होता है । अथवा त्रिफ-
लेके कल्कके द्वारा गोमूत्रमे भैसके घृतको सिद्ध करके
सेवन करनेसे भी पाण्डुरोग नष्ट होता है ॥ ३९ ॥

दन्तघृत ।

दन्त्याश्वतुष्पलरसे पिष्टैर्दन्तीशलाटु-
भिः । तद्वत्प्रस्थो घृताद्गुल्मप्लहिहृद्रो-
गपांडुनुत् ॥ ४० ॥

दन्ती और वेलगिरीको चार पल दन्तीके काथमे
पीसकर उसमे एक प्रस्थ घी डालकर पकावे । यह
घृत-गुल्म, फ्रीहा, हृदयरोग और पाण्डुरोगको नष्ट
करता है ॥ ४० ॥

दन्तीकुडवोऽत्राष्टपलिकः षोडशभिः
सलिलकुडवैः । निष्काथ्य पादाविशेषः
कृतः ॥

दन्तीघृतके सिद्ध करनेमे आठपलका कुडव लेना
चाहिए। सोलह कुडव पानीमे काथकर जब चतुर्थांश
पानी शेष रह जाय तब उसको छानकर काममे
लाना चाहिए ।

योगराज ।

ताप्यरजतरूप्यायोमलाः पञ्चपलाः
पृथक् । चित्रकत्रिफलाव्योषविडङ्गैः
पलिकैः सह ॥ ४१ ॥ शर्कराष्टपलो-
न्मिश्रा चूर्णिता मधुनाप्लुता । उदु-
म्बरसमां मात्रामतः खादेद्यथाग्नि-
मान् ॥ ४२ ॥ दिने दिने प्रयोगेण जी-
र्णे भुञ्जाद्यथेप्सितम् । वर्जयित्वा कु-
लित्थांश्च काकमाचीकपोतकान् ॥ ४३ ॥

योगराज इति ख्यातो योगोऽयममृ-
तोपमः । रसायनामिदं श्रेष्ठं सर्वरोग-
हरं परम् ॥४४॥ पांडुरोगं विषं कासं
यक्ष्माणं विषमज्वरम् । कुष्ठानि गरजं
मेहं श्वासं हिकामरोचकम् ॥ ४५ ॥
विशेषाद्धन्त्यपस्मारं कामलां गुदजा-
नि च ॥ ४६ ॥

सोनामाखी, रूपामाखी, रूपेकी भस्म और लोहेका
चूर्ण प्रत्येक पांच २ पल लेवे चीता, त्रिफला, त्रिकुटा
और वायविडंग, ये प्रत्येक औषधि चार २ तोले लेवे
और खांड आठ पल लेवे। सबको एकत्र पीसकर बारीक
वूर्ण करके शहदेम मिलाकर प्रति दिन एक तोले
प्रमाण या आग्निका बलावल विचार कर भक्षण
करे। इसके जीर्ण होनेपर यथेष्ट भोजन करे। इसपर
कुलथी, काकमाची (मकोय) और कबूतर इनको
त्याग देवे। यह योग "योगराज" इस नामसे प्रसिद्ध
है और अमृतके समान गुणकारी है। यह श्रेष्ठरसायन
सर्वरोगनाशक है। पाण्डुरोग, विष, खांसी, राजयक्ष्मा,
विषमज्वर, कुष्ठ, गरदोष, प्रमेह, श्वास, हिचकी,
अराचि, विशेष कर अपस्मार, कामलारोग और बवा-
सीरको नष्ट करता है ॥ ४१—४६ ॥

सुवर्णमथवा रूप्यं योगे यत्र न सम्भ-
वेत् । तत्र लोहेन कर्माणि भिषक्-
कुर्यादितन्द्रितः ॥ ४७ ॥

जहां सुवर्ण अथवा चांदी न मिले वहां वैद्य लोहेके
ही द्वारा कर्म करे ॥ ४७ ॥

शिवगुटिका ।

कुटजत्रिफलानिम्बपटोलघननागरैः ।
भावितानि दशाहानि रसैर्द्विगुणि-
तानि च ॥ ४८ ॥ शिलाजतुपला-
न्यष्टौ तावती सितशर्करा । त्वक्-
क्षीरी पिप्पली धात्री कर्कटारुखा
पलोन्मिता ॥ ४९ ॥ निदग्धीफलमू-
लाभ्यां पलं युञ्ज्यात्रिजातकात् । म-
धुत्रिपलसंयुक्तां कुर्यादक्षसमां गुटीम्
॥ ५० ॥ दाडिमाम्लपयःक्षीररसयू-
षसुरासवान् । तांभक्षयित्वाऽनुपि-

वेन्निरन्नो हितभक्ष्यभाक् ॥ ५१ ॥ पांडु-
कुष्ठगरुड्रीहकामलाशोभगन्दरान् ।
श्रुतिदृक्कुम्भसृत्राग्निदोषशोथगदोद-
रान् ॥ ५२ ॥ कासासृग्वातपित्तासृक्-
शूलगुल्मगलग्रहान् । नेत्रचक्रगदान्-
न्ति सर्वरोगहरा शुभा ॥ ५३ ॥

कुडकी छाल, त्रिफला, नीम, पटोलपात, नागर-
मोथा, और सांठ इन प्रत्येकके सोलह २ पल काथमे
अलग २ आठ पल शिलाजातको भावना देवे। फिर
उसमे आठ पल सफेद खांड मिलावे। तथा वंगलोचन,
पीपल, आमले, काकडाशिगी, कटेरोकी जड और
फल, तथा त्रिजातक इन प्रत्येकका चूर्ण चार २ तोले
और शहद वारह तोले मिलाकर एकएक तोलेकी
गोलियां बना लेवे। प्रातिदिन एक गोली खाय और
ऊपरसे अनारकारस, नींबूका रस, जल, दूध, रस,
यूप, सुरा और धासव इनमेंसे किसी एकका अनुपा-
नकरे इसपर हितकारी भोजन करे यह शिवगुटिका
पाण्डुरोग, कोढ़, विषदोष, प्लीहा, कामला, बवासीर
भगन्दर, कर्णरोग, नेत्ररोग, वीर्यवोष, मूत्ररोग, अग्नि,
मन्दता, सृजन, उदररोग, खांसी, वातरक्त, रक्त-
पित्त शूल, गुल्म, गलग्रह और, सर्वप्रकारके नेत्ररोग
तथा सम्पूर्ण रोगोंके समूहको हरनेवाली है ॥ ४८ ॥
॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥

ऽयूषणादिवटी ।


ऽयूषणं त्रिफला दारु हरिद्रे नीलि-
नीफलम् । द्राक्षा चेन्द्रयवं मुस्ता
मंजिष्ठा कटुरोहिणी ॥ ५४ ॥ शता-
वरी शिशुबीजं चित्रकं गजपिप्पली ।
शालिपर्णी पृष्टपर्णी बृहती कण्टका-
रिका ॥ ५५ ॥ पाठा भल्लातकं दन्ती
विशाला सदुरालभा । शटी मधुरसा
रास्ना विडंगश्च समाक्षिकम् ॥ ५६ ॥
एतैश्चूर्णैः समैर्वापि लोहं द्विगुणमा
वपेत् । यावश्शुकश्च संसृद्य गवां
सूत्रेण पाचयेत् ॥ ५७ ॥ ततोऽक्षमात्रां
गुटिकां पाययेत्तंडुलाम्बुना । पाण्डु

रोगं जयत्याशु ब्रह्मदण्ड इवासुरान्-
न ॥ ५८ ॥ कृमिकुष्ठप्रमेहाशौग्रह-
णीदोषशोथहा । भगन्दरश्वासका-
सप्तीहगुल्मोदरापहा ॥ ५९ ॥

त्रिकुटा, त्रिफला, दारुहल्दी, हल्दी, नीलके फल,
वाख, इन्द्रजा, नागरमोथा, मर्जाठ, कुटकी, शता-
वर, सहिंजनेके बीज, चोता, गजपीपल, शालपर्णी,
पृष्ठपर्णी, कटेरी, बडो कटेरी, पाढ, भिलोवे, दन्ती,
इन्द्रायण, धमामा, कचूर, मूर्वा, रायसन, वाय-
विडंग और मोनामारत्री, इन सब औषधियोंका चूर्ण
समान भाग और लोहेका चूर्ण दो भाग तथा जवा-
रवार दो भाग, सबको एकत्र मिलाकर गोमूत्रमें
पकावे । फिर एक २ तोलेकी गोलियां बना लेवे ।
प्रतिदिन एक गोली चावलोके जलके साथ सेवन करे ।
यह गोली पाण्डुरोगको नष्ट करनेवाली है जिमप्रकार
दन्तियोंका ब्रह्मदण्ड शत्रु ही नष्ट कर देता है, तथा
यह गोली कृमि, कुष्ठ, प्रमेह, बवासीर, मंग्रहणी,
सूजन, भगन्दर, श्वास, खाँसी, प्रीहा, गुल्म और
उदररोगको नष्ट करती है ॥ ५४—५९ ॥

इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां
पाण्डुरोगाधिकार सम्पूर्ण ।

अथ कामलारोगनिदान ।



पाण्डुरोगी तु योऽत्यर्थं पित्तलानि
निषेवते । तस्य पित्तमसृङ्मांसं
दग्ध्वा रोगाय कल्पते ॥ ६० ॥

जो पाण्डुरोगी अत्यन्त पित्तकारक पदार्थोंको सेवन
करता है उसका पित्त रुधिर और मांसको जलाकर
कामलारोगको उत्पन्न करता है ॥ ६० ॥

हारिद्रनेत्रः स भृशं हारिद्रत्वङ्नखा-
ननः । रक्तपीतशकृन्मूत्रो भेकवर्णो
हतेन्द्रियः ॥ ६१ ॥ दाहाविपाक-
दौर्बल्यसदनारुचिकर्षितः । काम-
लां बहुपित्तेषा कोष्ठशाखाश्रया
मता ॥ ६२ ॥

कामलारोगमें नेत्र हल्दीके समान अत्यन्त पीले हो
जाते हैं, त्वचा, नख, और मुख भी अत्यन्त पीले हो

जाते हैं, मल और मूत्र लाल तथा पीले होते हैं, सम्पूर्ण
शरीर बरसातके भेदकके समान पीला होता है,
इन्द्रियोंकी शक्ति नष्ट हो जाती है तथा दाह, अन्नका
न पचना, दुर्बलता, अंगोंकी शिथिलता और अरुचि
इनसे व्याकुल होता है इस रोगमें चित्त प्रबल होता
है । यह कोष्ठाश्रित और शाखाश्रित इन भेदोंसे दो
प्रकारका है ॥ ६१ ॥ ६२ ॥

कुम्भकामला ।

कालान्तरात्खरीभूता कृच्छ्रा स्यात्कु-
म्भकामला ॥ ६३ ॥

यही कामलारोग बहुत पुराना होनेसे कृच्छ्रसाध्य
होकर कुम्भकामला नामसे कहा जाता है ॥ ६३ ॥

कृष्णः पीतशकृन्मूत्रो भृशं शूनश्च
मानवः । सरक्ताक्षिमुखच्छर्दिवि-
ण्मूत्रो यश्च ताम्यति ॥ ६४ ॥

जिसका मल और मूत्र काला तथा पीला हो,
शरीर अत्यन्त सूजनयुक्त हो तथा नेत्र, मुख, वमन,
विष्टा और मूत्र यह सब लाल हो जायें और पडोंके
मारे अत्यन्त व्याकुल हो ऐसा कामलारोगी असाध्य
होता है ॥ ६४ ॥

दाहारुचिन्तृडानाहतन्द्रामोहसम-
न्वितः । नष्टाग्निं सञ्जः क्षिप्रं हि का-
मलावान्विपद्यते ॥ ६५ ॥

दाह, अरुचि, तृषा, आनाह, तन्द्रा और मोह इन
उपद्रवों सहित, तथा जिसकी अग्नि नष्ट हो गई हो
और जो ज्ञानरहित हो गया हो ऐसा कामलारोगी
अवश्य मर जाता है ॥ ६५ ॥

छर्द्यरोचकहृल्लासज्वरकृमनिपीडितः ॥
नश्यति श्वासकासार्ती विद्भेदी
कुम्भकामला ॥ ६६ ॥

वमन, अरुचि, उबकाई, ज्वर, ग्लानि, श्वास
और खाँसी इनसे पीडित और मलका पतला उतरना
इन लक्षणोंवाला कुम्भकामलारोगी अवश्य नष्ट हो
जाता है ॥ ६६ ॥

चिकित्सा ।

रेचनं कामलार्त्तस्य स्निग्धस्यादौ
प्रयोजयेत् । ततः प्रशमनी कार्य्या
क्रिया वैद्येन जानता ॥ ६७ ॥

प्रथम कामलारोगीको घृतादिसे स्निग्ध कराकर विरेचन करावे, पश्चात् इसको जमन करनेवाली चिकित्सा करे ॥ ६७ ॥

त्रिफलाया गुडूच्या वा दार्व्या निंब-
स्य वा रसः । प्रातर्माक्षिकसंयुक्तः
शीलितः कामलापहः ॥ ६८ ॥

त्रिफलेके रसमे, अथवा गिलोयके रसमे किम्वा दारुहल्दीके रसमे अथवा नीमके रसमे, गृह्यद मिलकर प्रातःकाल पानसे कामलारोग नष्ट होता है ॥ ६८ ॥

अञ्जनं कामलार्तानां द्रोणपुष्पीरसं
शुभम् । निशागैरिकधात्रीणां चूर्णं
वा संप्रकल्पयेत् ॥ ६९ ॥

उत्तम गुमाके पत्तेके रसको अथवा हल्दी, गेरू और आमले इनके चूर्णको कामलारोगीके नेत्रोमे आंजनेसे कामला रोग दूर होता है ॥ ६९ ॥

नस्यं कर्कोटमूलस्य घ्रेयं वा जालि-
नीफलम् । गुडूची पत्रकल्कं वा पिबे-
त्तक्रेण कामली । भक्तं तक्रेण भुञ्जीत
स जहात्याशु कामलाम् ॥ ७० ॥

कर्कोटकी जड़को पीसकर नास देनेसे, अथवा कडवी तोरईको पीसकर नास देनेसे कामलारोग दूर होता है । अथवा कामलारोगी गिलोयके पत्तेके कल्कको तक्रेके साथ पान करे वा तक्रेके साथ भातको भोजन करे तो कामलारोग शीघ्र दूर होता है ॥ ७० ॥

लोहचूर्णं निशायुग्मं त्रिफलां कटुरो-
हिणीम् । प्रलिह्य मधुसर्पिभ्यां
कामलार्तः सुखी भवेत् ॥ ७१ ॥

लोहेका चूर्ण, हल्दी, दारुहल्दी, त्रिफला और कुटकी इनके चूर्णको शहद और घी मिलाकर चाटे तो कामला रोगी सुखी होता है ॥ ७१ ॥

अष्टादशांगगुटिका ।

किराततिकं सुरदारु दार्वी मुस्ता-
गुडूची कटुका पटोलम् । दुरालभा
पर्पटकं सनिम्बं कटुत्रिकं वापि फल-
त्रिकञ्च ॥ ७२ ॥ विडङ्गसारञ्च समा-

शकानि सर्वैः समं चूर्णमथात्र लौह-
म् ॥ सर्पिर्मधुभ्यां गुटिका विधेया
तक्रानुपानं भिषजा प्रयोज्यम् ॥ ७३ ॥
निहन्ति पांडुं श्वयथुं प्रमेहं हलीमकं
हृद्ग्रहणीप्रदोषम् । श्वासञ्च कासञ्च
सरक्तपित्तमर्शास्यथोरोग्रहमामवात-
म् ॥ ७४ ॥ व्रणान्सगुल्मान्कफविद्रधी-
श्च श्वित्राणि कुष्ठं सततप्रयोगात् ॥ ७५ ॥

चिरायता, देवदारु, दारुहल्दी, नागरमोथा, गिलोय, कुटकी, पटोलपत्र, धमासा, पित्तपापड़ा, नीम, त्रिकुटा, त्रिफला और वायविडंग ये सब औषधि समान भाग लेकर चूर्ण कर लेवे और सब चूर्णके बराबर लोहेका चूर्ण लेवे फिर सबको एकत्र मिलाकर शहद और घीके योगसे गोली बनावे । इस गोलीको तक्रेके साथ सेवन करे । यह अष्टदशांग गुटिका निरन्तर प्रयोग करनेसे पाण्डुरोग, सूजन, प्रमेह, हलीमक, हृदयरोग, संग्रहणीरोग, श्वास, खाँसी, रक्तपित्त, बवासीर, उरोग्रह, आमवात, व्रण, गुल्म, कफ, विद्रधि और श्वित्रकुष्ठको दूर करता है ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥

धात्रीलोह ।

धात्री लोहरजो व्योषनिशाक्षौद्रा-
ज्यशर्कराः । लीढ्वा निवारयत्याशु
कामलामुद्धतामपि ॥ ७६ ॥

आमले, लोहेका चूर्ण, त्रिकुटा और हल्दी इनके चूर्णको शहद, घी और मिश्रीके साथ मिलाकर खाए तो अत्यन्त बढा हुआ कामलारोग भी नष्ट होता है ॥ ७६ ॥

तुल्यां वायोरजः पथ्याहरिद्रां क्षौ-
द्रसर्पिषा । चूर्णितां कामली लिह्या-
द्दुडक्षौद्रेण चाभयाम् ॥ ७७ ॥

लोहेका चूर्ण, हरड और हल्दी इनके चूर्णको समान भाग लेकर शहद और घी मिलाकर चाटे अथवा हरडके चूर्णको गुड और शहदमें मिलाकर चाटे तो कामलारोग दूर होता है ॥ ७७ ॥

हरिद्रादिघृत ।

हरिद्रात्रिफलानिम्बबलामधुकसाधि-
तम् । सक्षीरं माहिषं सर्पिः कामला-
हरमुत्तमम् ॥ ७८ ॥

हल्दी, त्रिफला, नीमकी छाल, खिरैटी और
मुलेठी इनके कल्कके द्वारा भैसके दूधमे घृतको पका-
कर सेवन करे तो कामलारोग नष्ट होता है ॥ ७८ ॥

गुडूचीघृत ।

गुडूचीरसकल्काभ्यां सिद्धं क्षीरचतु-
र्गुणे । माहिषं घृतमेवाशु कामलाहर-
मुत्तमम् ॥ ७९ ॥

गिलोयके रस और कल्कके द्वारा चौगुने दूधमें
भैसके घीको सिद्ध करे । यह घृत-कामलारोगको
हरनेके लिये श्रेष्ठ है ॥ ७९ ॥

अयोरजो हरिद्रे द्वे त्रिफला कटुरो-
हिणी । चूर्णं कामलिनां श्रेष्ठं घृतमा-
क्षिकसंयुतम् ॥ ८० ॥

लोहेका चूर्ण, हल्दी, दारुहल्दी, त्रिफला और
कुटकी इनका चूर्ण गृहद और घीमें मिलाकर सेवन
करे । यह-कामलारोगियोंको अत्यन्त हितकारी
है ॥ ८० ॥

सकफो मारुतः पित्तं कामलायां
बहिः क्षिपेत् । तस्य स्युः पीतमूत्र-
त्वक्धेतविट्दशनानि च ॥ ८१ ॥ वि-
ष्टम्भगौरवाटोपहिक्काश्वासज्वरादयः ॥
॥ ८२ ॥ तं हि कटुम्लरूक्षैश्च शिखि-
तित्तिरदक्षजैः । रसैर्युषैश्च कौलित्थै-
र्मुद्गजैरपि भोजयेत् । व्योषाढ्यं बी-
जपूराम्लं पिबेद्वातप्रशान्तये ॥ ८३ ॥

जब कामलारोगमे कफ और वायुके साथ पित्त
शरीरके बाहर त्वचादिपर गिरता है तब उसके मूत्र
और त्वचा पीले तथा विष्टा और दाँत सफेद हो जाते
हैं और विष्टम्भ, गुरुता, अफारा, हिचकी, श्वास
और ज्वरादि उपद्रव होते हैं । ऐसे रोगीको कटु,
अम्ल और रूखे पदार्थ, मोर, तीतर और मुरगे
इनका सोरुआ, कुलथी और मूँगका घूप, त्रिकुटेके

चूर्णको विजौरे, नींबूके रसमें मिलाकर वातको शमन
करनेके लिये सेवन करावे ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥

कुम्भाख्यकामलायां तु हितः काम-
लिको विधिः ॥ ८४ ॥ गोमूत्रेण पि-
बेत्कुम्भकामलायां शिलाजतु । मा-
सं माक्षिकधातुं वा किट्टं वाथ हिर-
प्यजम् ॥ ८५ ॥

कुम्भकामलारोगमे कामलामे कही हुई विधि
हितकारी है । कुम्भकामलारोगमे शिलाजीतको गो-
मूत्रके साथ एक महीनेतक सेवन करे, अथवा सोना-
माखी या लोहेके मैलको किवा सोनेके मैलको सेवन
करे ॥ ८४ ॥ ८५ ॥

दग्ध्वाक्षकाष्ठैर्मलमायसं तु गोमूत्र-
निर्वापितमष्टवारम् । विचूर्ण्य लीढं
मधुनाऽचिरेण कुम्भाह्वयं पाण्डुगदं
निहन्ति ॥ ८६ ॥

लोहेके मैलको लेकर बहेडेकी लकड़ियोंमे तपाकर
गोमूत्रमे बुझावे, इसप्रकार आठवार करे । फिर इसका
चूर्ण करके गृहदमे मिलाकर सेवन करे तो थोड़े ही
कालमे कुम्भकामला और पाण्डुरोग नष्ट होता
है ॥ ८६ ॥

कामलान्तः सृजेद्यस्तु तैलपिष्टानिभं
मलम् । कफबद्धगुदस्तस्य श्लेष्मघ्नैः
कामलां हरेत् ॥ ८७ ॥

कामला रोगीके यदि तैल और पिष्टकके समान
मल उतरे और गुदा कफसे बँधी हो तो कफनाशक
औपधियोंके द्वारा उस कामलारोगको नष्ट करे ८७ ॥

इति वंगसेने भापाटीकायां
कामलाधिकारः सम्पूर्णः ।

अथ पाण्डुरोगका भेद हलीमक ।

यदा तु पाण्डोर्वर्णः स्याद्धरितः श्या-
वपीतकः । बलोत्साहक्षयस्तन्द्रा म-
न्दाग्नित्वं मृदुज्वरः ॥ ८८ ॥ स्त्रीष्व-

हर्षोऽङ्गमर्दश्च श्वासस्तृष्णाऽरुचिर्भ्रमः।
हलीमकं तदा तस्य विद्यादनिल-
पित्ततः ॥ ८९ ॥

जब पाण्डुरांगीके शरीरका रंग हरा, धूसर और पीला होता है तथा बल और उत्साहका नाश होता है, तन्द्रा, मन्दाग्नि, स्त्रीप्रसंगमें अनिच्छा, अंगोंका दूटना, श्वास, तृष्णा, अरुचि और भ्रम हो तब उसको हलीमकरोग कहते हैं। यह वातपित्तसे उत्पन्न होता है ॥ ८८ ॥ ८९ ॥

पानकीके लक्षण ।

सन्तापो भिन्नवर्चश्च बहिरंतश्च पीत-
ता । पांडुता नेत्रयोर्यस्य पानकील-
क्षणं वदेत् ॥ ९० ॥

अब, पाण्डुरोगका भेद पानकी है उसके लक्षण कहते हैं । जब पाण्डुरोगीके शरीरमें सन्ताप, मल पतला हो, बाहरके त्वचादि और भीतरके मलदि पीले हो और नेत्रोंका रंग पांडुवर्ण हो तब उसको पानकी कहते हैं ॥ ९० ॥

चिकित्सा ।

पिबेत्खदिरतोयेन मद्यं लोहरजांसि
च ॥ ९१ ॥

खैरके काथमें मदिरा और लोहेका चूर्ण मिलाकर हलीमकरोगमें पान करे ॥ ९१ ॥

सिताद्यवलेह ।

सितातित्ताबलायष्टिःत्रिफलारजनीयु-
गैः । लेहं लिह्यात्समध्वाज्यं हलीम-
कप्रशांतये ॥ ९२ ॥

मिथी, कुटकी, खिरौटी, मुलैठी, त्रिफला, हल्दी और दारुहल्दी इनका चूर्ण करके शहद और घीमें मिलाकर अवलेह बनावे । यह अवलेह हलीमकको शांत करनेके लिये सेवन करे ॥ ९२ ॥

मधुरैरम्लपानैस्तं वातपित्तहर्हरैरेत् ।
कामलापांडुरोगोक्तां क्रियां चात्र
प्रयोजयेत् ॥ ९३ ॥

हलीमकरोगमें वातपित्तनाशक मधुर और अम्ल औषधियोंका पानक बनाकर पिलावे और कामला एव पाण्डुरोगमें कही हुई चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ९३ ॥

अमृतादिघृत ।

अमृतलतारसकल्कप्रसाधितं तुरग-
विद्धिषा सर्पिः । क्षीरचतुर्गुणमेतद्वि-
तरेच्च हलीमकार्त्तैभ्यः ॥ ९४ ॥

गिलोयके स्वरस और कल्कके द्वारा भैसके घीको चौगुने दूधमें पकावे । यह घृत हलीमकरोगको नष्ट करता है ॥ ९४ ॥

फलत्रिकामृतावासात्तित्ताभूनिम्ब-
निम्बजः । काथः क्षौद्रयुतो हन्या-
त्पांडुरोगं सकामलम् ॥ ९५ ॥

त्रिफला, गिलोय, अड़सा, कुटकी, चिरायता और नीम इनके काथमें शहद डालकर पान करे तो पाण्डु और कामलारोग नष्ट होते हैं ॥ ९५ ॥

दावीतित्ताभयारिष्टवर्षाभूसुपटोल-
जः । काथः शोथोदरश्वासकामला-
पांडुरोगनुत् ॥ ९६ ॥

दारुहल्दी, कुटकी, हरड़, नीम, पुनर्नवा और पटोलपत्र इनका काथ सूजन, उदररोग, श्वास, कामला और पाण्डुरोगको दूर करता है ॥ ९६ ॥

नवायस चूर्ण ।

त्र्यूषणं त्रिफला सुस्तं विडङ्गश्चित्रकं
समम् । लोहचूर्णं नवगुणं कृत्वा चूर्णं
पिबेन्नरः ॥ ९७ ॥ मासं तत्रेण गोमू-
त्रैर्लिह्याद्वा मधुसर्पिषा । स जयेत्पां-
डुहृद्रोगकुष्ठशोथभगन्दरान् ॥ ९८ ॥
कृमीनर्शांसि जयति मन्दाग्नित्वम-
रोचकम् । युक्तितोऽभ्यसनाच्चैव जरां
न लभतेऽबलम् ॥ ९९ ॥ इन्द्रियाणां
विशुद्धिश्च बलवर्णप्रसादनम् । मासे-
न लभते जन्तुरेतच्चूर्णं नवायसम् १००

सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आँवला, नागरमोथा, वायविडंग और चीता ये प्रत्येक औषधि एक २ भाग और लोहेका चूर्ण नौ भाग लेवे । सबको एकत्र पीसकर एक महीने पर्यंत तक और गोमूत्रके साथ पान करे अथवा शहद और घीमें मिलाकर चाटे तो पाण्डुरोग, हृदयरोग, कोढ, सूजन, भगन्दर, कृमिरोग, बवासीर, मन्दाग्नि और अरुचि ये सब नष्ट होते हैं इस चूर्णको एक महीनेतक युक्ति और अभ्याससे विधिपूर्वक सेवन करे तो वह मनुष्य जरा और निर्बलताको प्राप्त नहीं होता है । इसके प्रभावसे इन्द्रियें शुद्ध, बल और वर्णमें प्रसन्नता उत्पन्न होती है ॥ ९७-१०० ॥

मण्डूरवटक ।

पुनर्नवात्रिवृद्धोषविडङ्गं दारुचित्रकम् । कुष्ठं हरिद्रे त्रिफला दन्ती च-
व्यं कलिंगकम् ॥ १०१ ॥ कटुका पि-
पिलीमूलं मुस्तश्चेति पलोन्मितम् ।
मंडूरं द्विगुणं चूर्णाद्गोमूत्रार्धाढके
पचेत् ॥ १०२ ॥ गुडवद्वटकान् कृत्वा
तक्रेणालोढ्य तान् पिबेत् । ते पाण्डु-
रोगं स्त्रीहानमर्शांसि विषमज्वरम् ।
श्वयथुं ग्रहणीदोषं हन्युः कुष्ठकृ-
मीस्तथा ॥ १०३ ॥

पुनर्नवा, निसोत, त्रिकुटा, वायविडंग, देवदारु, चीता, कूट, हल्दी, दारुहल्दी, त्रिफला, दन्ती, चव्य, इन्द्रजौ, कुटकी, पीपलामूल और नागरमोथा ये प्रत्येक औषधि एक २ पल लेकर चूर्ण करलेवे और सब चूर्णसे दुगुना मंडूर लेवे । सबको एकत्र करके आधे आढक परिमाण गोमूत्रमें पचावे। जब गुडके समान पाक होजावे तब उसके बडे बनाकर तक्रेके साथ सेवन करे । यह मंडूरवटक-पाण्डुरोग, स्त्रीहा, बवासीर, विषमज्वर, सूजन, संग्रहणी, कोढ और कृमिरोगको नष्ट करनेवाला है ॥ १०१ ॥ १०२ ॥ १०३ ॥

बृहन्मण्डूरवटक ।

शूषणं त्रिफला मुस्तं विडङ्गं चव्य-
चित्रकौ । दावीत्वङ्माक्षिकं धातु-
प्रन्थिकं देवदारु च ॥ १०४ ॥ एषां

द्विपालिकान्भागान्कृत्वा चूर्णं पृथक्
पृथक् । मंडूरं द्विगुणं चूर्णाच्छुद्ध-
मञ्जनसात्रिभम् ॥ १०५ ॥ मूत्रे चाष्ट-
गुणे पक्त्वा तस्मिंस्तु प्रक्षिपेत्ततः । उ-
दुम्बरसमान्कुर्याद्द्वटकांस्तान्यथाभि-
वान् ॥ १०६ ॥ उपयुञ्जीत तक्रेण सा-
त्म्यं जीर्णं च भोजयेत् । मण्डूरवटका
ह्येते प्राणदाः पाण्डुरोगिणाम् ॥ १०७ ॥
कुष्ठानि गरजं शोधमूरुस्तम्भं कफा-
मयान् । अर्शांसि कामलां मेहान् स्त्री-
हानं शमयत्यपि ॥ १०८ ॥

त्रिकुटा, त्रिफला, नागरमोथा, वायविडंग, चव्य, चीता, दारुहल्दी, दालचीनी, सोनासाखी, पीपला-मूल और देवदारु ये प्रत्येक औषधि आठ २ तोले लेकर चूर्ण करलेवे और कृष्ण अंजनके समान निर्मल मंडूर सब चूर्णसे दुगुना लेवे । सबको एकत्र आठ-गुने गोमूत्रमें पकावे, फिर एक २ तोलेके बडे बनालेवे । इनको अम्रिका बलाबल विचार कर तक्रेके साथ सेवन करे । जब औषधि जीर्ण हो जाय तब अपने स्वभावके अनुकूल भोजन करे । यह मण्डूरवटक-पाण्डुरोगियोंको प्राण देनेवाले है । तथा कोढ, विषविकार, सूजन, ऊरुस्तम्भ, कफरोग, बवासीर, कामला, प्रमेह और स्त्रीहाको शमन करनेवाले है ॥ १०४-१०८ ॥

निम्बादिगुटिका ।

निम्बं पटोलं कुटजं त्रिफला मुस्त-
नागरम् । पचेज्जलाढके पादशेषे द-
द्याच्च शीतले ॥ १०९ ॥ शिलाजतु
पलान्यष्टौ मासं संस्थापयेच्च तम् ।
उद्धृत्य तं शिलातुल्यमेतांश्चापि पलो-
न्मितान् ॥ ११० ॥ मोचधात्रीफल-
तुगाकर्कटादिनिदग्धिकाः ॥ त्रिवर्ण-
पादसंयुक्तं क्षौद्रं त्रिपलसंयुतम् ॥ १११ ॥
पयोऽनुपानं गुटिकां कृत्वा खादेद्यथा-
बलम् । कामलापाण्डुरोगार्शःशोध-
ज्वरनिपीडितः ॥ ११२ ॥

नीमकी छाल, पटोलपत्र, कुलेकी छाल, त्रिफला, नागरमोथा और सोंठ ये प्रत्येक औषधि चार २ तोले लेकर एक आढकजलमें पकावे जब जल, चाँदा-ई भाग भेष रहजाय तब उतारकर छानलेंवे । फिर इसमें आठ पल शिलाजीत डालकर पृथ्वीमें गाढवेवे पश्चात् एक महीनेमें जब पत्थरके समान हो जाय तब उखाड लेवे फिर इसमें मोचरस, आमले, बंश-लोचन, काकटाशींगी और कटेरी प्रत्येक औषधिका चूर्ण एक २ पल मिलावे और गहद तीन पल मिलावे फिर एक २ तोलेकी गोलियाँ बना लेवे । प्रतिदिन बलानुसार एक गोली खाय और दूधका अनुपान करे । यह गोली-कामला, पाण्डुरोग, धवासीर, मूत्रन और ज्वरसे पीडित मनुष्योंको अत्यन्त हितकारी है ॥ १०९—११२ ॥

मंडूरगुटिका ।

विडङ्गमुस्तत्रिफलादेवदारुपडूषणैः ।
निर्वाप्य सप्तधा मूत्रे मंडूरं ग्राह्य-
मिष्यते ॥ ११३ ॥ तुल्यमात्रमय-
श्चूर्णं गोमूत्रेऽष्टगुणे पचेत् । तैरक्षमा-
त्रां गुटिकां कृत्वा खादेद्दिने दिने ॥
कामलापांडुरोगार्त्तः सुखमापद्यते
क्षणत् ॥ ११४ ॥

वायाविडंग, नागरमोथा, त्रिफला, देवदारु, त्रि-कुटा, चञ्च, चीता और पीपलामूल ये सब औष-धिये समान भाग लेवे और सबके बराबर गोमूत्रमें शुद्ध किया हुआ मण्डूर लेवे। सबको एकत्र पीसकर अठगुने गोमूत्रमें पकावे, जब लेहके समान होजाय तब एक २ तोलेकी गोलियाँ बनालेवे । प्रतिदिन एक गोली खाय । इससे—कामला और पाण्डुरोगी तत्काल सुखी होते हैं ॥ ११३ ॥ ११४ ॥

विभीतक्यादिगुटिका ।

विभीतकायोमलनागराणां चूर्णं ति-
लानां गुडसंप्रयुक्तम् । तक्रानुपानं
गुटिका निहन्ति ह्यतिप्रवृद्धानपि
पांडुरोगान् ॥ ११५ ॥

बहेडा, लोहेका मल, सोंठ और तिल इनका चूर्ण करके गुडमें मिलाकर गोलियाँ बनावे इन गोलियोंको

सकके साथ नेत्रन त्ने नो प्रत्यन्त बटा हुआ भी पाण्डुरोग नष्ट होना है ॥ ११५ ॥

मण्डूरवज्रवटक ।

पक्षकोलं समरिचं देवदारुफलत्रिकं-
म् । हिंशुमुस्तसमायुक्ता भागास्त्रिप-
लसम्मिताः ॥ ११६ ॥ यावन्त्येतानि
चूर्णानि मंडूरं द्विगुणं ततः । पक्षा चा-
ष्टगुणे मूत्रे घनीभूतं समुद्भवेत् ॥ ११७ ॥
ततोऽक्षमात्रान्वटकान् पिबेन्नक्रेण त-
क्रमुक् । पांडुरोगं जयत्येष मन्दाग्निव-
मरोचकम् ॥ ११८ ॥ अर्शांसि ग्रहणी-
शोथमूरुस्तंभं हलीमकम् । कृमिं प्री-
हानमुदरं गलरोगञ्च नाशयति ॥ ११९ ॥
मंडूरो वज्रनामायं रोगानीकप्रणाश-
नः ॥ १२० ॥ निर्वाप्य सप्तधा मूत्रे
मंडूरं ग्राह्यमिष्यते । ग्राह्येदष्टगुणि-
तं गोमूत्रं सर्वचूर्णतः ॥ १२१ ॥

पीपल, पीपलामूल, चञ्च, चीता, सोंठ, मिरच देवदारु, हरद, बहेडा, आमला, हींग और नागरमोथा ये प्रत्येक औषधि बाराह २ तोले लेवे और सबसे दुगुना मंडूर लेवे । फिर सबको एकत्र करके अठगुने गोमूत्रमें पकावे । जब पकते २ गाढा हो जाय तब उतारकर एक २ तोलेके बडे बनालेवे । प्रति दिन एक बड़ा तक्रके साथ सेवन करे। यह मंडूरवज्रवटक-पाण्डुरोग, मंदाग्नि, अराचि, धवासीर, मंग्रहणी, सूजन, उरुस्तम्भ, हलीमक, कृमि, प्रीहा, उदररोग और गलरोगको नष्ट करते हैं । यह मंडूरवज्र-सम्पूर्णरोगोंको हरनेवाला है । इसमें प्रथम मंडूरको सातवार अग्निमें तपाकर सातवार गोमूत्रमें बुझाना चाहिए और सब चूर्णसे अठगुना गोमूत्र लेना चाहिए ॥ ११६—१२१ ॥

विडंगाद्यवलेह ।

विडङ्गं त्रिफला व्योषं दावीं कृष्णम-
योरजः । कामला पांडुरोगघ्नं लिह्यात्
क्षौद्रघृतप्लुतम् ॥ १२२ ॥

वायाविडंग, हरद, बहेडा, आमला, सोंठ, मिरच, पीपल, दारुहल्दी और कृष्णलोहेकी भस्म इन सबको

एकत्र पीसकर शहद और घीमें मिलाकर चाटे तो कामला और पाण्डुरोग नष्ट होते हैं ॥ १२२ ॥

आमलक्यवलेह ।

रसमामलकीनान्तु संशुद्धं यन्त्रपीडितम् । द्रोणं पचेत्तु मृद्गन्तौ तत्र चेमानि दापयेत् ॥ १२३ ॥ चूर्णितं पिप्पलीप्रस्थं मधुकं द्विपलं तथा । प्रस्थं गोस्तनिकायाश्च द्राक्षायाः कल्कपेशितम् ॥ १२४ ॥ शृङ्गवेरपले द्वे च तुगाक्षीर्याः पलद्वयम् । तुलार्थं शर्करायाश्च घनीभूतं समुद्धरेत् ॥ १२५ ॥ मधुप्रस्थसमायुक्तं लेहयेत्पलसम्मितम् । हलीमकं कामलाश्च पांडुत्वं चापकर्षति ॥ १२६ ॥

अच्छेप्रकारसे यन्त्रद्वारा निकाला हुआ आमलेका स्वरस एक द्रोण लेकर मन्द मन्द अग्निसे पकावे और उसमें पीपलका चूर्ण १ प्रस्थ, मुलैठी दो पल, एवं दाख १ प्रस्थ, इन सबको शीतल जलमें पीसकर मिलादेवे । जब सिद्ध होजाय तब सोंठका चूर्ण ८ तोले, वशलोचन ८ तोले और मिश्री ५० पल मिलाकर बतार लेवे । फिर शीतल होनेपर १ प्रस्थ शहद मिलादेवे । प्रतिदिन इसमेंसे चार तोले प्रमाण सेवन करे । यह अवलेह—हलीमक, कामला और पाण्डुरोगको नष्ट करता है ॥ १२३--१२६ ॥

खदिरलेह ।

पचेत् खदिरनिःकाथे विडङ्गं धान्ययोरजः । बला तित्ता सिता यष्टी त्रिफला रजनीद्वयम् ॥ १२७ ॥ लेहं लिह्यात्समध्वाज्यैः पांडुरोगी हलीमकी । स लेहः कामलां हन्यादपि संवत्सरोत्थिताम् ॥ १२८ ॥

खैरके काथमें वायविडग, धनियॉ, लोहचूर्ण, खिरैटी, कुटकी, मिश्री, मुलैठी, त्रिफला, हल्दी और दारुहल्दी इनका एकत्र चूर्ण करके शहद और घीमें मिलाकर सेवन करे । यह अवलेह—एक वर्षके पुराने हलीमक, पाण्डुरोग और कामला रोगको नष्ट करता है ॥ १२७ ॥ १२८ ॥

कल्याणगुड ।

कृष्णे द्वे प्रस्थिकं वह्निर्दीप्यकोषणसैन्धवम् । कृमिघ्नं त्रिफला धान्यकालजामजमोदकम् ॥ १२९ ॥ पलिकानि त्रिवृत्पञ्च तैलं सर्पिः पलाष्टकम् । रसप्रस्थत्रयं धान्या गुडस्यार्द्धशतं पचेत् ॥ १३० ॥ एतत्कल्याणकं पाण्डुकामलाशौज्वरापहम् । मेहकुष्ठक्षयश्वासग्रहणीहृद्रसायनम् ॥ १३१ ॥

पीपल, गजपीपल, पीपलामूल, चीता, अजवायन, कालीमिरच, सैधानमक, वायविडग, त्रिफला, धनियॉ, कालाजीरा और अजमोद ये प्रत्येक औषधि चार २ तोलें, निसोत ५ पल, तेल और घी ८-८ पल, आमलेका स्वरस ३ प्रस्थ और गुड ५० पल इन सबको एकत्र करके पकावे । यह कल्याणगुड--पांडु, कामला, बवासीर, ज्वर, प्रमेह, कोठ, क्षय, श्वास, ग्रहणीरोग और हृद्रोगको नष्ट करता है तथा उत्तम रसायन है ॥ १२९ ॥ १३० ॥ १३१ ॥

पुनर्नवादिक्वाथ ।

पुनर्नवानिम्बपटोलशुण्ठीतित्तामृतादाव्यभयाकषायः । सर्वाङ्गशोथोदरकासशूलश्वासान्वितं पांडुगदं निहन्ति ॥ १३२ ॥

पुनर्नवा, नीम, पटोलपत्र, सोठ, कुटकी, गिलोय, दारुहल्दी और हरड, इनका काथ सम्पूर्ण अंगोकी सूजन, उदररोग, खाँसी, शूल और श्वासयुक्त पाण्डुरोगको नष्ट करता है ॥ १३२ ॥

पथ्य ।

यवगोधूमशाल्यन्नरसैर्जाङ्गलजैः समैः । सुदाढकीमसूराद्यैर्युषो भोजनमिष्यते ॥ १३३ ॥

इसमे जौ, गेहूँ, जालिचावलोंका भात, जंगली जीवोंका मांसरस, मूँग और अरहर तथा ममूरादिका यूष भोजनके लिये हितकारी है ॥ १३३ ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां पांडु
कामलाहलीमकरोगाधिकार
संपूर्ण ।

अथ रक्तपित्तनिदान ।

धर्मव्यायामशोकाध्वप्रवायैरति-
सेवितैः । तीक्ष्णोष्णक्षारलवणैरम्लैः
कटुभिरेव च ॥१॥ पित्तं विदग्धं स्वगु-
णैर्विदहत्याशु शोणितम् । ततः प्रव-
र्त्तते रक्तमूर्ध्वश्चाधो द्विधापि वा ॥२॥
ऊर्ध्वं नासाक्षिकर्णास्यैर्मेंद्रेयोनिगुदै-
रधः । कुपितं रोमकूपैश्च समस्तैस्त-
त्प्रवर्त्तते ॥ ३ ॥ केचिच्चैव यकृत्प्लीहा
प्रवदन्त्यसृजो गतिम् ॥ ४ ॥

अधिकतर धूपसे फिरनेसे, परिश्रम करनेसे, शोकके करनेसे, बहुत मार्गके चलनेरो और अत्यन्त स्त्रीप्रसंग करनेसे, तीक्ष्ण, गरम, खार, लवण, अम्ल और कटु ऐसे पदार्थोंको अत्यन्त सेवन करनेसे इत्यादि कारणोसे दग्ध हुआ पित्त अपने गुणोंसे रुधिरको जलाता है । तब वह रुधिर ऊर्ध्व अथवा अधोमार्गसे किन्वा ऊर्ध्व और अधो दोनों मार्गोंसे निकलने लगता है । ऊर्ध्वमार्ग अर्थात् नासिका, नेत्र, कान और मुख आदिके द्वारा निकलता है । और अधो-मार्ग-अर्थात् लिंग, योनि और गुदाके द्वारा निकलता है । जब वह अधिक कुपित होता है तो सम्पूर्ण रोमकूपोंसे निकलने लगता है । कोई वैद्य रुधिरकी गतिको यकृत् और प्लीहा भी कहते हैं ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥

पूर्वलक्षण ।

सदनं शीलकामित्वं कण्ठधूमायनं
वमिः । लोहगन्धश्च निःश्वासो भव-
त्यस्मिन् प्रविश्यति ॥ ५ ॥

सर्वे अंगोंमें शिथिलता, शीतलपदार्थोंकी इच्छा, गलेमेंसे धुआसा निकलना, वमनका होना और श्वासमें लोहेके समान गन्धका आना, ये लक्षण रक्तपित्त होनेके पूर्व होते हैं ॥ ५ ॥

श्लेष्मिकरक्तपित्तके लक्षण ।

सान्द्रं सपांडु सस्नेहं पिच्छिलञ्च कफा-
न्वितम् ।

गाढा, पाण्डुवर्ण, स्नेहयुक्त और पिच्छिल रंगा रुधिर कफके रक्तपित्तमें निकलता है ।

वातिकरक्तपित्तके लक्षण ।

श्यावारुणं सफेनञ्च तनु रुध्रञ्च वा-
तिकम् ॥ ६ ॥

वातजरक्तपित्तमें रुधिर धूसर, लाल, झागोंयुक्त, पतला और रुग्ना निकलता है ॥ ६ ॥

पैत्तिकरक्तपित्तके लक्षण ।

रक्तपित्तं कषायाभं कृष्णं गोमूत्रस-
न्निभम् । मेचकांगारधूमाभमञ्जना-
भञ्च पैत्तिकम् ॥ ७ ॥

पित्तजरक्तपित्तमें कोढ़के समान रंगवाला, काला, गोमूत्रके समान, मोरके पृष्ठके समान, चन्द्रमाके समान, अंगारेके समान धुयेके समान और अंजनके समान नीला या काला रुधिर गिरता है ॥ ७ ॥

द्वन्द्वज और सन्निपातज

रक्तपित्तके लक्षण ।

संसृष्टलिङ्गं संसर्गात्रिलिङ्गं सान्नि-
पातिकम् । ऊर्ध्वगं कफसंसृष्टमधोगं
मारुतानुगम् । द्विमार्गं कफवाता-
भ्यामुभाभ्यां तत्प्रवर्त्तते ॥ ८ ॥

द्वन्द्वजरक्तपित्तमें दो दोषोंके लक्षण और त्रिदोषज रक्तपित्तमें तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं । ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त कफजन्य होता है, अधोगामी वातजन्य होता है और दोनों मार्गोंसे निकलनेवाला कफ-वात दोनों दोषोंसे उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥

ऊर्ध्वं साध्यमधो याप्यमसाध्यं युग-
पन्नम् ॥ ९ ॥

इन्मे उर्ध्वगामी साध्य है, अधोगामी याप्य और ऊर्ध्व तथा अधो दोनों मार्गोंसे निकलनेवाला असाध्य है ॥ ९ ॥

एकमार्गं बलवतो नातिवेगं नवोत्थितम् । रक्तपित्तं सुखे काले साध्यं स्यात्त्रिरुपद्रवम् ॥ १० ॥

एक मार्गसे निकलनेवाला, बलवान् रोगीके उत्पन्न हुआ, बहुत वेगवाला नहीं, नवीन गतिकालमें उत्पन्न हुआ और उपद्रवरहित ऐसा रक्तपित्त साध्य होता है ॥ १० ॥

एकदोषानुगं साध्यं द्विदोषं याप्यमुच्यते । यद्विदोषमसाध्यं तन्मन्दाग्नेरतिवेगवत् ॥ ११ ॥ व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्धस्यानश्रतश्च यत् ॥ १२ ॥

एकदोषजनित रक्त पित्त साध्य है, दोदोषजन्य याप्य है और त्रिदोषसे उत्पन्न हुआ मन्दाग्निवाले मनुष्यके अत्यन्त वेगयुक्त, रोगसे क्षीण हुए मनुष्यके, वृद्धके और जिसकी मूल कम होगई हो ऐसे मनुष्यके उत्पन्न हुआ रक्तपित्त असाध्य है ॥ ११ ॥ १२ ॥

रक्तपित्तके उपद्रव ।

दोर्बल्यं श्वासकासज्वरवमथुमदापांडुतादाहमूर्च्छा, भुक्ते घोरौ विदाहस्त्वधृतिरपि सदा हृद्यतुल्या च पीडा । तृष्णा कोष्ठस्य भेदः शिरसि च तपनं पूतिनिष्ठीवनञ्च, भक्तद्वेषाविपाको विकृतिरपि भवेद्रक्तपित्तोपसर्गाः ॥ १३ ॥

दुर्बलता, श्वास, खाँसी, ज्वर, वमन, नसासा मालूम हो, पाण्डुता, दाह, मूर्च्छा, भोजन करनेके पश्चात् घोर दाह हो, सदैव अधीरता, हृदयमें पीडा, तृष्णा, दस्तका पतला होना, शिरसे सन्ताप, यूकमे दुर्गन्ध, भोजनमें अरुचि, भोजनका अच्छे प्रकारसे नहीं पचना, इनके सिवाय और भी अनेक विकार होते हैं, ये सब-रक्तपित्तके उपद्रव है ॥ १३ ॥

असाध्यलक्षण ।

मांसप्रक्षालनाभं कथितमिव च यत् कर्दमाम्भोनिभं वा, मेदःपूयास्त्रकल्पं यकृदिव यदि वा पक्कजम्बूफलाभम् । यत् कृष्णं यच्च नीलं भृशमतिकुणपं यत्र चोक्ताविकारास्तद्वर्ज्यं रक्तपित्तं सुरपतिधनुषा यच्च तुल्यं विभाति ॥ १४ ॥

विकृतरूपसे असाध्यता कहते हैं । रक्तपित्तका रुधिर धोये हुए मांसजलके समान हो, काढेके समान हो, अथवा कीचके जलके समान हो, किम्वा मेद, राध और रुधिरमिश्रित हो, या कलेजेके समान अथवा पके जामुनफलके समान हो, काला अथवा नीला और जिसमें मुरदेके समान दुर्गन्ध आती हो, और जिसमें पूर्वोक्त विकार हो, एवं इन्द्रधनुष्यके समान जिसका वर्ण हो, ऐसा रक्तपित्त असाध्य होता है ॥ १४ ॥

येन चोपहतो रक्तं रक्तपित्तेन मानवः । पश्येद्दृश्यं वियञ्चैव तच्चासाध्यमसंशयः ॥ १५ ॥

रक्तपित्तसे पीडित मनुष्य जो आकाशादि सम्पूर्ण देखने योग्य घट, पटादि दृश्य पदार्थोंको लाल देखे वह रोगी अवश्य मर जाता है ॥ १५ ॥

लोहितं छर्दयेद्यस्तु बहुशो लोहितेक्षणः । लोहितोद्गारदर्शी च म्रियते रक्तपैत्तिकः ॥ १६ ॥

जो रक्तपित्तरोगी वारम्बार रुधिरकी वमन करे, तथा जिसके नेत्र लाल होजाय और जिसकी डकारमें रुधिर आवे ऐसा रोगी मर जाता है ॥ १६ ॥

चिकित्सा ।

पित्तास्त्रं शमयेन्नादौ प्रवृत्तं बलिनोऽश्रतः । हृत्पाण्डुग्रहणीदोषप्लीहगुल्मक्षयादिकृत् ॥ १७ ॥ गलग्रहं पूतिनस्यं मूर्च्छाञ्च ह्यरुचिं तथा । कुष्ठानर्शासि वीसर्पवर्णनाशं भगन्दरम् । बुद्धीन्द्रियोपरोधञ्च कुर्व्यात् स्तम्भितमादितः ॥ १८ ॥

वलवान और भोजन करनेवाले ऐसे रक्तपित्त-रोगीके वेगसे गिरे हुए रुधिरको पहले ही ठरुं साथ बंद नहीं करे, क्योंकि पहलेसे रुधिरको बंद करनेमें वह दूषित रुधिर जमकर हृदयरोग, पाण्डुरोग, संग्रहणी, प्रीहा, गुल्म, क्षयादि रोग, गलग्रह, पूति-नस्य, मूच्छा, अरुचि, कोढ, बवासीर, विमर्ष, विवर्णता, भगन्दर, बुद्धि और इन्द्रियोका अवरोध इत्यादि विकारोंको उत्पन्न कर देता है ॥ १७ ॥ १८ ॥

क्षीणमांसबलं बालं वृद्धं शोषालुब-
न्धिनम् । अवाम्यमविरेच्यश्च शमनी-
यैरुपाचरेत् ॥ १९ ॥

जिसका मांस और बल क्षीण होगया हो, व बालक, वृद्ध और जो शोषरोगसे पीडित है उनको वमन विरेचन नहीं कराने चाहिये, किन्तु शमन औषधियोंके द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए ॥ १९ ॥

ऊर्ध्वं प्रवृत्तदोषस्य पूर्वं लोहितपित्ति-
नः । अक्षीणबलमांसाग्नेः कर्त्तव्यमप-
तर्पणम् ॥ २० ॥

जिस रक्तपित्तरोगीके रुधिर ऊर्ध्वमार्गसे निकले तथा जिसका बल, मांस और अग्नि क्षीण न हुई हो ऐसे रोगीको प्रथम लंवन करावे ॥ २० ॥

ऊर्ध्वगे तर्पणं पूर्वं कर्त्तव्यश्च विरेचन-
म् । प्राग्धोगमने पेयं वमनश्च यथा
बलम् ॥ २१ ॥

ऊर्ध्वगत रक्तपित्तमें प्रथम तर्पण कराकर पश्चात् विरेचन करावे । अधोगत रक्तपित्तरोगमें प्रथम यथा नोपानुसारं पेया देवे, पश्चात् वमन करानी चाहिये ॥ २१ ॥

आरग्वधेन धात्र्या वा त्रिवृता पथ्य-
याऽथवा । विरेचनं प्रयोक्तव्यं शर्क-
रामाक्षिकोत्तरम् ॥ २२ ॥

अमलतास और आमले इनके काथमें, अथवा निसोत और हरड इनके काथमें घूरा और गहद डालकर विरेचन करावे ॥ २२ ॥

मुस्तेन्द्रयवयष्ट्याहं मदनाहं पयो
मधु । शिशिरं वमनं योज्यं रक्तपि-
त्तहं परम् ॥ २३ ॥

नागरमोथा, इन्द्रजौ, मुँलठी और मैनफल नइके काथमें दूध और गहद डालकर शीतल

करके वमन करनेके लिये पीये यह उत्तम रक्तपि-
त्तनाशक है ॥ २३ ॥

शालिपर्ण्यादिना सिद्धा पेया पूर्वम-
धोगते । रक्तातिमारहन्ता च योज्यो
विधिरशेषतः ॥ २४ ॥

अधोगत रक्तपित्तमें शालपर्णी आदि औषधियोंके द्वारा सिद्ध की हुई पेया प्रथम पान करे पश्चात् विशेष कर रक्तानीसारनाशक विधिक प्रयोग करे ॥ २४ ॥

शालिपष्टिकनीवारकोरदृपप्रसाधिता ।
श्यामाकश्च त्रियंगूश्च भोजनं रक्तपित्ति-
नाम् ॥ २५ ॥

जालि, साठी, नीवार, कोढे, समा और कंगनी ये सब धान्य रक्तपित्तवाले रोगीको भोजनके लिये देवे ॥ २५ ॥

मसूरसुन्नचणकाः समुकुष्ठाटकीफ-
लाः । प्रशस्ताः सूपयूषार्थं कल्पिता
रक्तपित्तिनाम् ॥ २६ ॥

मसूर, मूँग, चने, मौठ और अरहर इनकी दाल अथवा सूप रक्तपित्तवाले रोगीको देना चाहिए ॥ २६ ॥

दाडिमामलकं कोलमम्लार्थं चापि
दापयेत् । पटोलनिम्बवेत्राग्रप्लक्षवेत-
सपल्लवाः । शाकार्थं शाकसात्म्यानां
तण्डुलीयादयो हिताः ॥ २७ ॥

अनार, आमले और वेर ये रक्तपित्तरोगीको खटाईके लिये देवे । परवल, नीम, वेतका अग्रभाग, परवर और वेतके कोमल पत्ते तथा चौलाई आदिका शाक जिनके स्वभावके अनुकूल हो उन रक्तपित्तवाले रोगियोंको देवे ॥ २७ ॥

पारावतकपोतांश्च लावरक्ताक्षवर्त्त-
कान् । शशान् कापिञ्जलानेणान् हरि-
णान् कालपुच्छकान् ॥ २८ ॥ रक्तपित्तह-
रान् दद्याद्द्रसांस्तेषां प्रयोजयेत् ॥ २९ ॥

परेवा, कवूतर, लवा, चकोर, वत्तक, खरगोश, कापिञ्जल, सफेद तीतर, एणमूग-काला हिरन और कालपुच्छमूग इनका सासरस रक्तपित्तरोगवालेको देना चाहिये, यह रक्तपित्तनाशक है ॥ २८ ॥ २९ ॥

डेपदम्लाननम्लांश्च घृतभ्रष्टान् ससै-
न्धवान् । कफालुगे यूषशाकं दद्याद्वा-
तालुगे रसम् ॥ ३० ॥

किंचिन् अम्ल अथवा मधुरपदार्थ वीमें भूतकर
सैधानमक डालकर कफजररक्तपित्तरोगमे खानेको देवे
अथवा यूष और शाक देवे । और वातज रक्तपित्तमें
मांसरस देवे ॥ ३० ॥

पथ्यं सतीन्यूषेण ससितैर्लाजसक्तु-
भिः । जलं खर्जूरमृद्धीकामधुकैः सप-
रूपकैः ॥ ३१ ॥

रक्त पित्तरोगमें मटरका चूप और खांड मिले हुए
नीलोके सनुआका पथ्य देवे । खर्जूर, दाख, महुण
और फालसे इनका काथ पीनेको देवे ॥ ३१ ॥

ह्विविरमुत्पलं धान्यं चन्दनं याष्टिका-
मृता । वृषोशीरयुतः काथः शर्क-
रामधुसंयुतः ॥ ३२ ॥ रक्तपित्तं जय-
त्युग्रं तृष्णां दाहं ज्वरं तथा ॥ ३३ ॥

भुगन्धवाला, कमल, धनियाँ, लालचन्दन, मुलैठी,
मिर्चा, अहूसा और खस इनके काथमे शहद और
मिश्री मिलाकर पान करनेसे तृषा, दाह और ज्वर
महित अत्यन्त उग्र रक्तपित्त नष्ट होता है ३२ ॥ ३३ ॥

पद्मोत्पलानां किञ्चलकं पृष्टिपर्णी प्रियं-
गुका । जले साध्यरसे तस्मिन् पेया
स्याद्रक्तपित्तिनाम् ॥ ३४ ॥

कमल और कमोदनीकी केसर, पिठवन और फूल-
प्रियगु इनके काथके द्वारा पेया सिद्ध करके रक्तपित्त
रोगीको देवे ॥ ३४ ॥

चन्दनोशीरलोध्राणां रसे तस्मिन्
सनागरे । किराततिक्तकोशीरमुद्गा-
नां तद्वदेव तु ॥ ३५ ॥

अथवा चन्दन, खस, लोध और सोठ इनके काथमें
पेया तैयार करके रक्तपित्तरोगीको पान करावे ।
किवा चिरायता, खस और मूंगके काथमे पेया
बनाकर रक्तपित्तरोगीको देवे ॥ ३५ ॥

शशः सवास्तुकः शस्तो विबन्धे रक्त-
पित्तजे । वातोत्तरे तित्तिरिः स्याद्दुडुंबर-
रसे शृतः ॥ ३६ ॥

रक्तपित्तरोगमे विबन्ध हो तो खरगोसके मांसका
रस और वधुएका शाक देवे, यह अत्यन्त हितकारी
है । वाताधिक्य रक्तपित्तरोगमे तीतरके मांसका रस
और गूलरका रस अथवा गूलरका काथ हितकारी
है ॥ ३६ ॥

मयूरप्लक्षनिर्ग्रहो न्यग्रोधस्य च कुक्कु-
टः । रसो विषोपलादीनां वार्त्ताक-
कृकरो हितौ ॥ ३७ ॥

मोर और पाखर इनका निर्ग्रह, वड और मुरगेका
चूप अथवा कमलकेसर और मिश्री इनका चूप तथा
वेगुन आर केकडेका रस हितकारक है ॥ ३७ ॥

तृष्यते तित्तसंसिद्धं तृष्णाघ्नं वा कफो-
दकम् । सिद्धं विदारिगन्धार्थैः शृत-
शीतमथापि वा ॥ ३८ ॥

रक्तपित्तमे तृषा लगे तो तित्त औपधियोंके द्वारा
सिद्ध किया हुआ जल पीनेको देवे अथवा विदारिगिं-
धादि औपधियोंके द्वारा सिद्ध किया हुआ शृतशी-
तल जल पीनेको देवे ॥ ३८ ॥

प्रियंग्वञ्जनमृल्लोध्रः श्लक्ष्णचूर्णावचू-
र्णितः । वासाकाथो रसो वाऽसृक्
पित्तजित्सासितामधुः ॥ ३९ ॥

फूलप्रियगु, अंजन, मृत्तिका और लोध इनको
वारिक पीसकर चूर्ण कर लेवे, फिर इस चूर्णको
अहूसेके काथ अथवा रसके साथ मिश्री और शहद
मिलाकर पानकरे । यह रक्तपित्तनाशक है ॥ ३९ ॥

वृषपत्राणि संपीड्य रसं समधुशर्कर-
म् । पिबेत्तेन समं याति रक्तपित्तं सु-
दारुणम् ॥ ४० ॥

अहूसेके पत्तोंको कूटकर उनका रस निचाड़लेवे।
फिर उस रसमे शहद और मिश्री मिलाकर सेवन
करे तो दारुण रक्तपित्त नष्ट होता है ॥ ४० ॥

पत्रादिचूर्ण ।

पत्रं त्वगेलानतचन्दनानां श्यामासशु-
ण्ठीमधुकोत्पलानाम् । स्याद्वात्रिवा-
साद्विगुणोत्तराणां चूर्णं सिताक्षौद्रस-
मन्वितानाम् ॥ ४१ ॥ दाहे ज्वरे लोहि-

तपित्तयुक्ते कासे क्षये शोणितमूत्रकृ-
च्छे । रक्तेऽतिमात्रं पतिते मुखेन गुदे-
ऽथ नासाश्रुतिमेदृशो नो ॥ ४२ ॥ प्रोक्तं
पुरा रक्तविनिग्रहार्थं चूर्णं वसिष्ठेन
महागदग्रम् ॥

तेजपात २ भाग, बालचीनी ४ भाग, इलायची ६
भाग, तगर ८ भाग, चन्दन १० भाग, कालीसरि
१२ भाग, सोंठ १४ भाग, मुलैठी १६ भाग, कमल
१८ भाग, आमले २० भाग और अडूसा २२
भाग लेव । सबको एकत्र कूटकर चूर्ण बनावे,
फिर इस चूर्णमें समान भाग मिश्री और
शहद मिलाकर भक्षण करे । यह पत्रजादि
चूर्ण—डाहज्वर, रक्तपित्त, खोंसी, राजयक्ष्मा,
रुधिरविकार, मूत्रकृच्छ्र, अधिकतर रुधिरका मुख-
मार्गसे निकलना, गुदा, नासिका, कान, लिग और
योनि इनके द्वारा रुधिरका निकलना इन सबको
दूरकरता है । यह चूर्ण पूर्वकालमें वसिष्ठजीने रक्त-
पित्तके रोगको नष्ट करनेके लिये कहा है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

उत्पलं कुसुमं पद्मं कर्हारं लोहितो-
त्पलम् । मधुकश्चेति पित्तासृक्कृष्णा-
च्छिदिहरो गणः ॥ ४३ ॥

नीलेकमल, लालकमल, कर्भोदिनी, लालकर्मोदिनी
और मुलैठी इन सब औषधियोंका समूह रक्तपित्त,
तृषा और वमनको हरनेवाला है ॥ ४३ ॥

तथा वृषाकषायञ्च शर्करामधुसंयुतम् ।
पाययेत्तेन सद्यो हि रक्तपित्तं प्रशा-
म्यति ॥ ४४ ॥

अडूसेके काथको शहद और मिश्रीके साथ
मिलाकर पान करनेसे तत्कालही रक्तपित्तरोग नष्ट
होता है ॥ ४४ ॥

आटरूषकनिर्ग्रहं प्रियंगुमृत्तिकाञ्जने ।
विनीय लोध्रं सक्षौद्रं रक्तपित्तहरं-
पिवेत् ॥ ४५ ॥

अडूसेके काथमें फूलप्रियंगु, मृत्तिका, अंजन,
लोध्र और शहद डालकर पान करे तो रक्तपित्त नष्ट
होता है ॥ ४५ ॥

वासाकषायोत्पलमृत्प्रियंगुलं ध्राञ्ज-
नाम्भोरुहकेशराणि । पीन्वा सिना-
क्षौद्रयुतानि हन्यात् पित्तासृजो वे-
गमुदीर्णमाशु ॥ ४६ ॥

अडूसेके काथमें कमल, मिट्टी, फूलप्रियंगु, लोध्र,
अंजन और कमलकेशरका चूर्ण, मिश्री और शहद
डालकर पान करनेसे अत्यन्त वेगयुक्त रक्तपित्त नष्ट
होता है ॥ ४६ ॥

वासायां विद्यमानाग्रामाशायां जी-
वितस्य च । रक्तपित्ती क्षयी कासी
किमर्थमवसीदति ॥ ४७ ॥

अडूसेके विद्यमान होनेपर जीवितकी आशा करने
वाले रक्तपित्त, क्षय और खोंसीरोगवाले मनुष्य क्यों
दुःख पाते हैं ॥ ४७ ॥

तालीशचूर्णयुक्तः पेयः क्षौद्रेण वास-
कस्वरसः । कफापित्तश्वासतमकस्वर-
भेदरक्तपित्तहरः ॥ ४८ ॥

अडूसेके स्वरसमें तालीसपत्रका चूर्ण और शहद
डालकर पान करनेसे कफपित्त, तमक, श्वास, स्वरभेद
और रक्तपित्त नष्ट होता है ॥ ४८ ॥

आटरूषकमृद्गीकापथ्याक्काथः स-
शर्करः । क्षौद्राढ्यः कसनश्वासर-
क्तपित्तनिवर्हणः ॥ ४९ ॥

अडूसा, दाख और हरद इनके काथमें मिश्री
और शहद डालकर पान करनेसे खोंसी, श्वास और
रक्तपित्त नष्ट होता है ॥ ४९ ॥

शतावरी वरा रास्ना काश्मर्यं स-
परूषकम् । पाययेद्रक्तपित्तघ्नं सद्यः
शूलहरं परम् ॥ ५० ॥

शतावर, त्रिफला, रायसन, कुम्भेर और फालसे
इनका काथ बनाकर पान करनेसे रक्तपित्त और शूल
तत्काल नष्ट होता है ॥ ५० ॥

चन्दनेन्द्रयवाः पाठा कटुका सडु-
रालभा । गुडूची वासकं लोध्रं पिप्प-
लीक्षौद्रसंयुतम् । कफान्वितं जयेद्रक्तं
तृष्णाकासज्वरापहम् ॥ ५१ ॥

चन्द्रम, इन्द्रनी, पाद कुटकी, भगाम्बा, गिलोय, अद्रसा, लोथ और पीपल इनके काथमें शहद डालकर पान करनेमें उपयुक्त, कथिगता गिरता, तुषा, मोमी और गर नष्ट होता है ॥ ५१ ॥

पिवेच्छीनकषायं वा जंघाम्राज्जुनसम्भवम् । उदुम्बगफलानाञ्च रसं समधुपाययेत् ॥ ५२ ॥

जामुन, आम और राज्जुन इनका काथ शीतल करनेके पीछे विशा नुनखे पत्ताके रसमें शहद डालकर पान करे ॥ ५२ ॥

त्रिधृना त्रिफला श्यामा पिप्पली शर्करा मधु । मांदकः सत्रिपानोर्ध्वरक्तपित्तज्वरापहः ॥ ५३ ॥

निमोत, त्रिफला, श्यामासग, पीपल, मिश्री और शहद इनमेंधरे पात्र पीसकर लहसुन चनाके, यह मोटर सत्रिपानिक चूर्णमें रक्तपित्त और ज्वरको नष्ट करने है ॥ ५३ ॥

अनमीकुसुमसमङ्गा वटप्ररोहत्वग्म्भमा पीना । प्रशमयति रक्तपित्तं यदि गुडुक्तं सुदृगृपेण ॥ ५४ ॥

अनमीके फूल, लज्जापनी, वटके अक्षर और शलजनी इनका काथ बनाकर पानकरनेमें रक्तपित्त नष्ट होता है । इसमें सूंगके दूधके साथ भोजन करना चाहिए ॥ ५४ ॥

उशीरकालीयकलोध्रपद्मकं प्रियंगुकाकटफलशङ्खगोरिकम् । पृथक् पृथक् चन्दनतुल्यभागिकं सशर्करातंडुलधावनप्लुतम् ॥ ५५ ॥ रक्तं सपित्तं तमकं पिपासां दाहञ्च पित्तं शमयन्ति सद्यः ॥ ५६ ॥

ग्वस, कलम्बक, लोध्र, पन्नास, फूलप्रियंगु, कायफल, शख, गेर और चन्दन ये सब औषधि समान भाग लेकर चाबलोंके जलके साथ सेवन करे तो रक्तपित्त, तमक, श्वास, पिश्याम, दाह और पित्त ये सब तन्काल नष्ट होते हैं ॥ ५५ ॥ ५६ ॥

वृषस्य स्वरसं कृत्वा द्रवैरेभिः प्रयोजयेत् । प्रियंगुमृत्तिकालोध्रमञ्जनञ्चेति चूर्णयेत् ॥ एतच्चूर्णन्तु पानव्यं रसक्षौद्रसमन्वितम् ॥ ५७ ॥ नासिकासुखपायुभ्यो योनिर्महाच्च वेगतः । रक्तपित्तं भ्रवद्वन्ति सिद्ध एष प्रयोगराट् ॥ ५८ ॥ यत्र शश्वक्षतेनैव रक्तं भ्रवति वेगतः । तदप्यनेन चूर्णेन तिष्ठत्येवावचूर्णितम् ॥ ५९ ॥

अइसके म्वरसमें फूलप्रियंगु, फिटकरी, लोध्र, रमानस चूर्ण और शहद डालकर पान करे । यह योगराज-नासिका, गुग्गु, गुदा, योनि और लिंग इनके द्वारा कथिरे निकलनेका बंद करता है । शश्वके चारसमें जिन घावका कथिरे निकलना बंद नहीं होता यह कथिरे इस चूर्णके प्रभावसे बंद हो जाता है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥

अभया मधुसंयुक्ता पाचनी दीपनी मता । श्लेष्माणं रक्तपित्तञ्च हन्ति शलातिसारलुत ॥ ६० ॥

हरडके चूर्णको शहदके साथ सेवन करे । यह दीपन, पाचन, कफ, रक्तपित्त, शूल और पत्तीमांरको नष्ट करता है ॥ ६० ॥

दधूणां मध्यकाण्डानि सकन्दं नीलमुत्पलम् । केसरं पुण्डरीकस्य मोचं मधुकपद्मके ॥ ६१ ॥ वटप्ररोहशुङ्गाश्च द्राक्षा खर्जूर एव च । एतानि समभागानि कषायमवतारयेत् ॥ ६२ ॥ व्युपितं मधुसंयुक्तं पाययेच्छर्करान्वितम् । सप्रमेहं रक्तपित्तं क्षिप्रमेतन्नियच्छति ॥ ६३ ॥

इसके पीडेकी गांठ, नीलकमलका कन्द, सफेदकमलकी केसर, मोचरस, सुलैठी, पद्मास, वडके अंकुर, वटकी कोपल, दाख और खजूर ये सब समान भाग लेकर काथ बनाकर रात्रिमें रख देवे फिर सबेरेको इस काथमें शहद और मिश्री डालकर पान करे । यह काथ प्रमेह और रक्तपित्तको नष्ट करता है ॥ ६१ ॥ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥

लोहगन्धिनि निःश्वासे उद्गारे धूम-
गन्धिनि । पृथ्वीकां शाणमात्रान्तु
खादेद्द्विगुणशर्कराम् ॥ ६४ ॥

जो श्वासमे तमलोहके समान गन्ध आवे और
डकारमे धुयेके समान गन्ध आवे तो वडी इलाय-
चीका चूर्ण ४मागे लेकर ८मागे सफेद बूरामे मिलाकर
भक्षण करे ॥ ६४ ॥

कषायैर्विविधैर्योगैर्दीप्तेऽग््नौ विजिते
कफे । रक्तपित्तं न चेच्छाम्येत्तत्र वातो-
ल्वणं पयः ॥ ६५ ॥

कफरहित और दीप्त अग्निवाले मनुष्यके अनेक
काथोके पिलानेसे जो रक्तपित्त शान्त नही हो और
उसमे वातकी अधिकता हो तो दूध पिलावे ॥ ६५ ॥

छागं पयः स्यात्परमं प्रयोगे गव्यं
शृतं पञ्चगुणे जले वा । सशर्करं
माक्षिकसंप्रयुक्तं विदारिगन्धादिगुणे
शृतं वा ॥ ६६ ॥

बकरीके दूध अथवा गौके दूधको पाचगुने जलमे
पकावे । फिर उसमे मिश्री और शहद डालकर पान
करे अथवा विदारिगन्धादि औषधियोंके द्वारा सिद्ध
किये हुए दूधको पीवे ॥ ६६ ॥

यष्टीमधूकार्जुनजीवनीयद्राक्षाबला-
गोधुरकैः शृतं वा ॥ ६७ ॥

मुलैठी, अर्जुनली छाल, जीवनीयगणकी औषधि,
दाख, खिरैटी और गोखरू इनके द्वारा दूधको सिद्ध
करके पीवे ॥ ६७ ॥

द्राक्षायाः फलिनीभिर्वा बलाया
मधुकेन वा । श्वदंष्ट्रया शतावर्या
रक्तजित्साधितं पयः ॥ ६८ ॥

दाख और फूलप्रियंगू इनके द्वारा सिद्ध किया
हुआ दूध अथवा खिरैटी और मुलैठीके द्वारा सिद्ध
किया हुआ दूध किवा गोखरू और शतावरके द्वारा
सिद्ध किया हुआ दूध रुधिरको बढ करता है ॥ ६८ ॥

पक्वोदुम्बरकांश्मर्यः पथ्या खर्जूरगो-
स्तनी । मधुना हन्ति संलीढा रक्त-
पित्तं पृथक्पृथक् ॥ ६९ ॥

पके गूलर, कुम्भरके फल, हरट, खजूर और दाख
इन प्रत्येकको अलग २ शहदमें मिलाकर सेवन
करनेसे रक्तपित्त नष्ट होता है ॥ ६९ ॥

खदिरस्य प्रियंगूनां कोविदारस्य
शाल्मलेः । पुष्पचूर्णन्तु मधुना लिहन्ना-
रोग्यमश्नुते ॥ ७० ॥

खैर, फूलप्रियंगू, कचनार और सेमल इनके फूलोंका
चूर्ण करके शहदमें मिलाकर सेवन करे तो रक्त
पित्त नष्ट होता है ॥ ७० ॥

वासकस्य रसे पथ्या सप्तधा परिभा-
विता । कृष्णा वा मधुना पीता रक्त-
पित्तं द्रुतं जयेत ॥ ७१ ॥

अड्डसेके रसमे हरडको सातवार भावना देकर
अथवा पीपलको अड्डसेके रसमे भावना देकर शहदके
साथ सेवन करनेसे रक्तपित्त शीघ्र नष्ट होता है ७१ ॥

स्वरसः सरसः प्रोक्तः कल्को दृषदि
पेषितः । कथितस्तु शृतः शीतः
शर्वरीमुषितो हिमः ॥ ७२ ॥

द्रव्यको कूटकर जो रस निकाला जाय उसको
स्वरस कहते है और जो द्रव्य किंचित् जलमे पीसा
जाय उसको कल्क कहते है । जो औटाकर शीतल
क्रिया जाय उसको काथ कहते है और जो औटाकर
शीतलकरके अथवा औषधियोंको जलमे भिजोकर
रात्रिमे रक्खा जाय उसको हिम कहते है ॥ ७२ ॥

द्रव्येण यावता द्रव्यमेकीभूयाऽऽर्द्र-
तां व्रजेत् । तावत्प्रमाणं निर्दिष्टं
भिषग्भिर्भावनाविधौ ॥ ७३ ॥

द्रव्यको किसी स्वरस अथवा काथमे वारंवार
भिजावे । जबतक वह एकरूप होकर खूब गीला न
हो जाय तबतक भावना देवे, येही भावनाकी विधि
जाननी ॥ ७३ ॥

क्षीरेण लाक्षां मधुमिश्रितेन प्रपीय
जीर्णे पयसान्नमद्यात् । सद्यो निह-
न्याद्बुधिरं क्षतोत्थं कान्तार्जुनानाम-
थवापि कल्कम् ॥ ७४ ॥

लाखके चूर्णको दूधके साथ गृह्णमे मिलाकर पानकरे और इसके जीर्ण होनेपर दूधकी खीर भोजन करे तो तत्काल घावसे निकलनेवाला रुधिर बंद होजाता है । अथवा फूल त्रियंगू और अर्जुनकी छालका कल्क बनाकर सेवन करनेसे रुधिरका गिरना बंद होता है ॥ ७४ ॥

कल्कं मधूकत्रिफलाजुनानां निशि स्थितं लोहमये सुपात्रे । साज्यं विलिह्यानुपिवित्सुशीतं सशर्करं छागपयः क्षुधात्तः ॥ ७५ ॥

मुलै ठी, त्रिफला और अर्जुनकी छाल इनका कल्क बनाकर रात्रिके समय लोहेके वासनमे भरकर रख दें, फिर प्रातःकाल इसमें घी मिलाकर पान करे। इसके ऊपर जीतल पदार्थोंका अनुपान करे और जब भूख लगे तो मिश्री मिलाकर वनरीका दूध पीवे ॥ ७५ ॥

अतिनिस्तृतरक्तो वा क्षौद्रयुक्तं पिबेदसृङ्ग । यकृद्वा भक्षयेदाजं मांसं पित्तसमायुतम् ॥ ७६ ॥ पारावतस्य मांसं वा घृतसिद्धं सशर्करम् । भक्षयेन्मधुना शीतं रक्तपित्तनिवारणम् ॥ ७७ ॥

अधिकतर रुधिरके निकलनेपर बकरेके रुधिरको गृह्णके साथ पीवे अथवा मांस और पित्तसंयुक्त बकरेका यकृन् खाय किन्वा कवूतरके मांसको घीमें भूनकर मिश्री मिलाकर जीतल करके शहदके साथ खाय तो रक्तपित्त नष्ट होता है ॥ ७६ ॥ ७७ ॥

सकफे ग्रथिते रक्ते क्षारः सक्षौद्रसर्पिषा ॥

कफके रक्तपित्तमे रुधिरकी गांठे पड जानेपर जवाखारको गृह्ण और घीमें मिलाकर भक्षण करे ॥

मृणालोत्पलपद्मानां किंशुकासनयोस्तथा ॥ ७८ ॥ मधुकस्य त्रियंगूनामवलेहः पृथक् पृथक् । प्रायेणोपहताग्नित्वात् सपित्तनातिसार्यते ॥ ७९ ॥ प्राप्नोति चास्य वैरस्यं नवान्नमभिन्दति । नागरेन्द्रयवौ तत्र पातव्यौ

तण्डुलांबुना ॥ सिद्धा यवागू जीर्णे वा चाङ्गेरीतक्रदाडिमैः ॥ ८० ॥

कमलकी नाल, कमोदनी, कमल, पलाशपुष्प, विजयसार मुलैठी और फूल त्रियंगू इनका पृथक् २ अवलेह बनाकर रक्तपित्तमे सेवन करे । रक्तपित्तमे प्रायः अग्निके नष्ट होजानेसे पित्त अधिक निकलताहै। तब मुखमे विरसता और अन्नमे अरुचि उत्पन्न होती है । अग्निके नष्ट होनेपर सोठ और इन्द्रजोका चूर्ण चावलके जलके साथ पान करे और इसके जीर्ण होनेपर नोनिया, तक्र और अनार इनके द्वारा सिद्ध की हुई यवागू पान करे ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥

नासाप्रवृत्तरुधिरं घृतभृष्टं श्लक्ष्णपिष्टमायलकम् । सेतुरिव तोयवेगं रुणद्धि मूर्ध्नि प्रलेपेन ॥ ८१ ॥

आमलोको घीमें भूनकर वारीक पीसकर मस्तकपर लेप करनेसे नासिकासे रुधिरका गिरना इस प्रकार बन्द होता है जिस प्रकार जलके वेगको पुल रोकेदेता है ॥ ८१ ॥

घ्राणप्रवृत्ते जलमाशु देयं सशर्करं नासिकया पयो वा । द्राक्षारसं क्षीरघृतं पिबेद्वा सशर्करं चक्षुरसं पिबेद्वा ॥ ८२ ॥

नासिकाके द्वारा अधिक रुधिर गिरनेपर जलमे मिश्री मिलाकर नासिकासे पान करे, अथवा दूध, किम्वा दाखका रस, अथवा दूध, घी या ईखके रसमे मिश्री मिलाकर पान करे ॥ ८२ ॥

रसो दाडिमपुष्पोत्थो रसो दूर्वाभवोऽथवा । आम्रास्थिजः पलाण्डोर्वा नासिकासुतरक्तजित ॥ ८३ ॥

अनारके फूलोका रस, अथवा दूधका रस, किम्वा आमकी गुठलीका रस, अथवा प्याजके रस का नाम लेनेसे नासिकासे रुधिरका गिरना बन्द होता है ॥ ८३ ॥

रसो दाडिमपुष्पस्य दूर्वारससमन्वितः । आलक्तकरसोपेतः पथ्यारससमन्वितः ॥ ८४ ॥ योजितो नासयोः क्षिप्रं त्रिदोषमपि दारुणम् । नासारक्तं प्रवृत्तन्तु हन्यादिति किमद्भुतम् ॥ ८५ ॥

अनारके फूलोका रस, दूबका रस, लाखका वा मेहदीका रस और हरडका रस इनसबको मिलाकर नास देनेसे त्रिदोषज और अत्यन्त दारुण नासिकासे रुधिरका गिरना बन्द हो जाता है ॥ ८४ ॥ ८५ ॥

दूर्वाभयादाडिमपुष्पकानां लाक्षाम-
लक्ष्याः स्वरसेन नस्यम् । दिनत्रयं
यः कुरुते प्रभाते नासाऽसृजं नाम
रुजं निहन्ति ॥ ८६ ॥

दूब, हरड, अनारके फूल, लाख और आमले इनका स्वरस निकालकर तीनदिनतक प्रातःकाल नास देनेसे नाकसे रक्तका गिरना बन्द होजाता है ॥ ८६ ॥

श्यामाघृत ।

श्यामाऽश्वमोरटानन्ताशर्कराभिः शृ-
तं घृतम् । सर्वदोषहरं हृद्यं नस्यं ना-
सागतेऽसृजि ॥ ८७ ॥

कालीसर, असगन्ध, क्षीरमोरट, अनन्तमूल और मिश्री इन सब औषधियोंके द्वारा घृतको सिद्ध करके नासदेवे तो नाकसे रुधिरका गिरना बन्द होजाता है तथा यह घृत-सर्वदोषनाशक और हृदयको हितकारी है ॥ ८७ ॥

दूर्वाद्यतैल ।

दूर्वा भव्यफलं माषकुलित्थौ वंशपत्रि-
का । जलस्थलोद्भवौ कर्णमोचकौ ख-
रमञ्जरी ॥ ८८ ॥ दण्डोत्पलस्य मूलं
तु निःकाथ्याष्टगुणेऽम्भसि । तत्पा-
दशेषितं तैलं तुल्यं कृत्वा विपाचये-
त् । तत्तैलं प्रतिमर्शेन आनाहाख्यं
गदं जयेत् ॥ ८९ ॥

दूब, भव्यफल, उडद, कुलथी, वज्रपत्री, तृण, जल और स्थलमे होनेवाले कर्णमोरट, तृण, चिर-
चिटा और दण्डोत्पलकी जड इन सबको कूटकर आठगुने जलमे पकावे । जब चौथाई भाग जल शेष रह जाय तब उतार लेवे, फिर उसमे बराबरका तेल मिलाकर पकावे । यह दूर्वाद्यतैल आनाहाख्य रोगको नष्ट करता है ॥ ८८ ॥ ८९ ॥

रक्तातिसारिकं कर्म रक्ते स्यात्पायु-
गामिनि । पित्तप्रमेहिकं कर्म भेदूगे
विनियोजयेत् ॥ ९० ॥

जो गुदोके द्वारा रुधिर निकाले तो रक्तातिसारोक्त यत्न करने चाहिये और जो लिगके द्वारा निकलता हो तो पित्तजप्रमेहोक्त चिकित्सा करे ॥ ९० ॥

नृणपञ्चमूलीक्षीर ।

शृतं क्षीरं पिवेच्चापि पञ्चमूल्या तृषा-
ह्वया । गोकण्टकानां स्वरसेः पर्णि-
नीभिस्तथा पयः ॥ ९१ ॥ हन्त्याशु
रक्तं सरुजं विशेषान्मूत्रमार्गगम् ।
भेदूगे विहितश्चापि वस्तिरुत्तरसंशि-
कः ॥ ९२ ॥

तृण, पंचमूलको दूधमे औटाकर पान करनेसे, अथवा गोखरूके स्वरसको पान करनेसे किम्बा शालिपर्णी और पृश्निपर्णी, इनको दूधमे औटाकर पान करनेसे पीढायुक्त रुधिरका गिरना बन्द होता है और विशेषकर लिगके द्वारा रुधिरका गिरना बन्द होजाता है । लिगगत रक्तपित्तरोगमे उत्तरवस्ति देवे ॥ ९१ ॥ ९२ ॥

चन्दनाद्यचूर्ण ।

चन्दनं नलदं लोघ्रमुशीरं पद्मकेश-
रम् । नागपुष्पञ्च बिल्वञ्च भद्रमुस्तं
सशर्करम् ॥ ९३ ॥ ह्नीवेरश्चैव पाठा
तु कुटजोत्पलमेव च । शृङ्गवेरं सा-
तिविषा धातकी सरसाञ्जनम् ॥ ९४ ॥
आम्नास्थि जम्बुसारास्थि तथा मो-
चरसोऽपि च । नीलोत्पलं समङ्गा च
सूक्ष्मैला दाडिमत्वचम् ॥ ९५ ॥ च-
तुर्विंशतिरेतानि समभागानि कार-
येत् । तण्डुलोदकसंयुक्तं मधुना सह
योजयेत् ॥ ९६ ॥ योगो लोहितपि-
त्तानामर्शिनां ज्वरिणां तथा । मूर्च्छा-
भेदोपसृष्टानां तृणार्त्तानां प्रदाप-
येत् ॥ ९७ ॥ अतीसारं तथा छर्दिः
स्त्रीणाञ्च रजसो ग्रहम् । प्रच्युतानाञ्च
गर्भाणां स्थापनं परमुच्यते । अश्वि-
नोः सम्मतो योगो रक्तपित्तनिव-
र्हणः ॥ ९८ ॥

चन्दन, बालछट्ट, लोध, खस, कमलकेशर, नाग-
केशर, बेलगिरी, भद्रमोथा, मिश्री, सुगन्धवाला, पाठ,
कुठेकी छाल, कमल, अदरख, अतीस, धायके फूल,
रसौत, आमकी गुठली, जामुनकी गुठली, मोचरस,
नीले कमल, लज्जावती, छोटी इलायची और अनार-
की छाल इन सबको समान भाग लेकर कूटंपीमकर
चूर्ण करलेवे, फिर इस चूर्णको चावलोके जलके
साथ और गहतके साथ रक्तपित्तरोग, ववासीर,
ज्वर, मूच्छा, मेदरोग और तृपारोगवाले रोगी सेवन
करे । यह चूर्ण—अतीसार, वमन और त्रियोके
दूषित रुधिरको दूर करता है तथा गिरते हुए गर्भको
स्थापन करता है । यह योग रक्तपित्तको दूर करनेके
लिये अश्विनीकुमारोने निम्माण किया है ॥९३-९८॥

दूर्वाद्यघृत ।

दूर्वासोत्पलकिञ्जल्कं मञ्जिष्ठा शैलवालु-
कम् । शिवा लोभ्रसुशीरश्च सुस्तं
चन्दनपद्मकम् ॥ ९९ ॥ विपचेत्कार्षि-
कैरेतैः सर्पिराजं सुखाग्निना । तण्डु-
लाम्बु त्वजाक्षीरं दद्यादेवं चतुर्गुणम्
॥ १०० ॥ द्राक्षायष्ट्याहमधुककाश्म-
रीचन्दनं सितम् । पिष्ट्वा तत्कार्षि-
कैर्द्रव्यैर्वृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ १०१ ॥
तत्पानं वमतो रक्तं नावनं नासिका-
गते । कर्णाभ्यां यस्य गच्छेच्च तस्य
कर्णैः प्रपूरयेत् ॥ १०२ ॥ चक्षुःस्त्रा-
विणि रक्ते च पूरयेत्तेन चक्षुषी । मेदू-
पायुप्रवृत्ते च बस्तिकर्मणि तद्धितम् ॥
रोमकूपप्रवृत्ते च तद्भ्यङ्गे प्रयोजये-
त् ॥ १०३ ॥

दूब, कमल, कमलकी केशर, मजीठ, एलुआ,
हर्द, लोध, खस, नागरमोथा, चन्दन और पद्मास
प्रत्येक औपाधि एक एक कर्प, चावलोका जल १ प्रस्थ,
वकरीका दूध चार प्रस्थ, दाख, मुलेठी, कुम्भेर और
सफेद चन्दन इन प्रत्येकका कल्क एक एक कर्प और
घी एक प्रस्थ लेवे सबको मिला कर यथाविधिसे मठ
मद अग्निसे पकावे । इस दूर्वाद्यघृतको पान करनेसे
वमनके द्वारा रुधिरका गिरना बन्द होता है । नास
लेनेसे नाकसे रुधिरका गिरना बन्द होता है, कानसे

डालनेसे कानसे रुधिरका गिरना बन्द होता है, जो
नेत्रके द्वारा रुधिर स्रवे तो इसको नेत्रोमे भरे । जो
लिंग और गुदाके द्वारा रुधिर स्रवे तो इसको वस्ति-
कर्मसे प्रयोग करे और जो रोमकूपसे रुधिर निक-
लता हो तो इस घृतको शरीरमें मालिस करे ॥९९-
१०३॥

महादूर्वाद्यघृत ।

दूर्वासेन्दीवरं पद्मं मञ्जिष्ठा शैलवालु-
का । रास्त्रा मुस्ता तथोशीरं चन्दनं
मधुकाह्वयम् ॥ १०४ ॥ पद्मकं लोभ्र-
कुष्ठश्च चन्दनं रजनीद्वयम् । काको-
ल्यौ शारिवे चेति कल्कैरेभिश्च का-
र्षिकैः ॥ १०५ ॥ घृतप्रस्थमजाक्षीरं
तंडुलोदकसंयुतम् । दूर्वायाः स्वरसे-
नापि साधितं मृदुनाग्निना ॥ १०६ ॥
तत्पानं वमतो रक्तं नावनं नासिका-
गते । कर्णाभ्यां यस्य गच्छेच्च तस्य
कर्णो प्रपूरयेत् ॥ १०७ ॥ रक्तस्त्रावि-
णि चूर्शांसि लेपयेत्तेन सर्पिषा । मे-
दूपायुप्रवृत्ते तु तद्भ्यङ्गे प्रयोजयेत् ॥
॥ १०८ ॥ पित्तजेषु विकारेषु स्फो-
टादिषु च बुद्धिमान् । विषेषु कीट-
दोषेषु विसर्पेषु प्रयोजयेत् ॥ १०९ ॥

दूब, नीलेकमल, कमल, मजीठ, एलुआ, रायसन,
मोथा, खस, चन्दन, मुलेठी, पद्मास, लोध, कूठ,
सफेद चन्दन, हल्दी, दारुहल्दी, काकोली, क्षीरका-
कोली, सारिवा और अतन्तमूल, प्रत्येकका कल्क एक
२ तोला, गौका-धी १ प्रस्थ, वकरीका दूध ४ प्रस्थ,
चावलोका जल ४ प्रस्थ और दूबका स्वरस ४ प्रस्थ
लेवे सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिसे मन्द २
अग्निसेद्वारा घृतको सिद्ध करे । इस घृतको पान कर-
नेसे रुधिरकी वमन दूर होती है । नास-लेनेसे नासि-
कासे रुधिरका गिरना बन्द होता है । कानोमे भर-
नेसे कानसे रुधिरका गिरना बन्द होता है । जो ववा-
सीरमे रुधिर गिरता हो तो ववासीरके मस्तोपर इस
घृतका लेप करे । जो रुधिर गुदा और लिंगके द्वारा
गिरता हो तो इसको शरीरमें मालिस करे । इस

घृतको बुद्धिमान् वैद्य—सम्पूर्ण पित्तविकार, स्फोटक, विपदोप, क्लमिदोप और विसर्परागेमे प्रयोग करे ॥ १०४ ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ १०९ ॥

शुंगाद्यघृत ।

न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थशुङ्गानापोथ्य वासयेत् । अहोरात्रं जले तप्ते घृतं तेनाम्भसा पचेत् ॥ ११० ॥ तदर्द्धं शर्करायुक्तं लेहयेत् क्षौद्रपादिकम् । अधो वा यदि वा चोर्ध्वं रक्तं यस्य प्रवर्त्तते । सुखं तस्याशु युञ्जेत अग्निवेशवचो यथा ॥ १११ ॥

बड़, गूलर और पीपलवृक्षके अंकुर लेकर एक दिनरात जलमे पकाकर काथ वनावे, फिर इस काथमे घृत डालकर पकावे, पश्चात् उस घीमे आधा भाग मिश्री और चौथाई भाग शहद डालकर सेवन करे तो उर्ध्व और अधो दोनों मार्गोंसे सधिरका गिरना बंद होता है और रोगी सुखी होता है । ऐसा अग्निवेशने कहा है ॥ ११० ॥ १११ ॥

शतावरीघृत ।

शतावरीदाडिमत्तिडीकं काकोलिमेदे मधुकं विदारीम् । पिष्ट्वा तु कूलं फलपूगकस्य घृतं पचेत् क्षीरचतुर्गुणश्च ॥ ११२ ॥ कासज्वरानाहविवन्धशूलं तद्रक्तपित्तश्च घृतं निहन्ति ॥ ११३ ॥

शतावरी, अनार, इमली, काकोली, मेदा, महामेदा, मुलेठी, विदारीकन्द और सुपारी इन सबको पीसकर सबसे चौगुना दूधमे घीको सिद्धकरे । यह शतावरी घृत—खांसी, ज्वर, आनाह, विबन्ध, गूल और रक्तपित्तको नष्ट करता है ॥ ११२ ॥ ११३ ॥

बृहच्छतावरीघृत ।

शतावर्यास्तु मूलानां रसं प्रस्थद्वयं भ्रतम् । तत्समश्च भवेत्क्षीरं घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ११४ ॥ जीवकर्षभको मेदा महामेदा तथैव च । काकोली क्षीरकाकोली मृद्गीका मधुकं तथा ॥ ११५ ॥

शुद्धपर्णी भाषपर्णी विदारी रक्तचन्दनम् । शर्करामधुसंयुक्त सिद्धं विघ्नावयेद्घृतम् ॥ ११६ ॥ रक्तपित्तविकारेषु वातरक्तगदेषु च । क्षीणशुक्रे प्रदातव्य वाजीकरणमुत्तमम् ॥ ११७ ॥ अङ्गदाहं शिरोदाहं ज्वरं पित्तसमुद्भवम् । योनिशूलश्च दाहश्च मूत्रकृच्छ्रश्च पौत्तिकम् ॥ ११८ ॥ एतान् रोगान्निहन्त्याशु छिन्नाभ्राणां च मारुतः । शतावरीसर्पिरिदं बलवर्णाग्निवर्द्धनम् । शतावर्यादिके चाज्ये शर्करामधुपादिकम् ॥ ११९ ॥

शतावरका रस २ प्रस्थ, गोकादूध २ प्रस्थ, उत्तम घो १ प्रस्थ तथा जोवक, ऋपभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, दाख मुलेठी, मुगवन, मपवन, विदारीकन्द, लाल चन्दन इनका कल्क डालकर घृतको सिद्ध करे । जब सिद्ध होजाय तब मिश्री और शहद डालकर उत्तार लेवे । यह महाशतावरीघृत रक्तपित्त-रोग, वातरक्त ओर शुक्रकी क्षीणतामे प्रयोग करना चाहिए । यह उत्तम वाजीकरण तथा अंगदाह, शिरोदाह, पित्तज्वर, योनिशूल, दाह और पित्तजमूत्रकृच्छ्र इन सब रोगोंको नष्ट करता है । यह शतावरीघृत बल वर्ण और अग्निको बढ़ानेवाला है । इस शतावरीघृतमे मिश्री और शहद चौथाई भाग डालना चाहिए ॥ ११४—११९ ॥

वासाद्यघृत ।

वासां सशाखां सपलाशमूलां कृत्वा कषायं कुसुमानि चास्याः । प्रदाय कल्कं विपचेद्घृतं तत्सक्षौद्रमाश्वेव निहन्ति रक्तम् ॥ १२० ॥ शाणस्य कोविदारस्य वृषस्य ककुभस्य च । कल्कान् कृत्वा प्रशंसन्ति पुष्पकश्च चतुष्पलम् ॥ १२१ ॥

शाखा, पत्र और जड़सहित अडूसा लेकर काथ वनावे । फिर उस काथमे सन्न, कचनार वासा और अर्जुन इनके चारपल फूलोका कल्क और घृत डालकर उत्तम विधिसे घृतको सिद्ध करे । इस घृतमे शहद

डालकर पान करनेसे रुधिरका गिरना बंद हो जाता है ॥ १२० ॥ १२१ ॥

वासाघृत ।

समूलपत्रशाखं तु वृषं धौतं सुकुट्टितम् । स्वरसंतस्य निष्कास्य कषायं वा जले शृतम् ॥ १२२ ॥ चतुर्गुणे जले तस्मिन् घृतप्रस्थं विपाचयेत् । कुसुमैर्मञ्जरीभिश्च कल्कपेष्यैः सुखाग्निना ॥ १२३ ॥ विघट्टयेत् काष्ठद्व्यां पात्रे लोहमये दृढे । अनेन विधिना पक्वं मधुपादसमायुतम् ॥ १२४ ॥ पित्रेत्कासे क्षये श्वासे रक्तपित्ते हलीमके । शिरोपघाने तिमिरे तथा मन्दे च पावके । न तुल्यमस्ति भेषज्यं विशेषाद्रक्तपित्तिनाम् ॥ १२५ ॥

मूल, पत्र और शाखासाहित अड़सेको लेकर जलसे धोकर कूटकर उसका स्वरस निकाले, अथवा चौगुने जलमें पकाकर काथ बनावे, फिर इस काथमें घृत और अड़सेके फूल एवं मंजरी (बाल) का कल्क बनाकर मिला देवे, पश्चात् मंद मंद अग्निसे घृतको सिद्ध करे । फिर इस घृतको लोहेके पात्रमें डालकर काठकी कर्छीसे खूब घोटें । इसप्रकारसे पकाये हुए घृतमें चौथाई भाग शहद डालकर पान करे। यह घृत—खासी, क्षय, श्वास, रक्तपित्त, हलीमक, शिरोपघात, तिमिर और मंदाग्निरोगमें अत्यन्त हितकारी है । विशेषकर रक्तपित्तरोगकी इससे उत्तम अन्य औषधि नहीं है १२२—१२५ ॥

बृहद्रासा घृत ।

वासाकल्करसे सर्पिः पयसा सह पाचयेत् । कल्कैर्भूनिम्बकुटजमुस्तयष्ट्याहचन्दनैः ॥ १२६ ॥ उशरिमधुकानन्ताशारिवोत्पलपद्मकैः । त्रायन्त्युत्पलमूर्वाभिर्मदयन्त्याश्च पल्लवैः ॥ १२७ ॥ सिताक्षौद्रयुतं इत्याद्रक्तपित्तं सुदारुणम् । पैत्तिकं वातिकं गुल्मं स्वरभेदं हलीमकम् ॥ १२८ ॥

ये चान्ये कीर्त्तिता रोगा रक्तपित्तकफाश्रयाः । तान् सर्वान्नाशयत्येतत्पीयमानं हिताशिना ॥ १२९ ॥

उत्तम गौका घी ४ सेर, अड़सेका रस १६ सेर, दूध ४ सेर, अड़सा, चिरायता, कुडेकी छाल, नागर-मोथा, मुलैठी, चन्दन, खस, महुआ, अनन्तमूल, सारिवा, कमल, पद्माख, त्रायमाण, कसोदिनी, मूर्वा और मोतियाके पत्ते इनसबका मिला हुआ कल्क एक सेर लेवे । सबको मिलाकर विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे। इस घृतको मिश्रो और शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे दारुण रक्तपित्त, पैत्तिक गुल्म, वातिक गुल्म, स्वरभेद, हलीमक और जो अन्यान्य रक्तपित्त एवं कफसे उत्पन्न होनेवाले रोग हैं वे सब पानमात्रसे ही नष्ट होते हैं ॥ १२६—१२९ ॥

काभदेवघृत ।

अश्वगन्धापलशतं तदूर्द्धं गोक्षुरस्य च । शतावरी विदारी च शालिषणी बलामृता ॥ १३० ॥ अश्वत्थस्थ च शृङ्गानि पद्मबीजं पुनर्नवा । काश्मर्य्याश्च फलञ्चैव माषबीजं तथैव च ॥ १३१ ॥ पृथग्दशपलान् भागांश्चतुर्द्रोणेऽम्भसः पचेत् । द्रोणशेषे रसे तस्मिन् पूतशक्तिं प्रदापयेत् १३२ ॥ मृद्धीका पद्मकं कुष्ठं पिप्पली रक्तचन्दनम् । पत्रकं नागपुष्पञ्च आत्मगुप्ताफलं तथा ॥ १३३ ॥ नीलोत्पलं शारिवे द्वे जीवनीयान्यशेषतः । पृथक्कर्षसमा भागाः शर्करायाः पलद्वयम् ॥ १३४ ॥ रसः स्यात्पौण्ड्रकैक्षूणामाठकाठकमाहरेत् । चतुर्गुणेन पयसा घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ १३५ ॥ रक्तपित्तं क्षतक्षीणं कामलां वातशोणितम् । हलीमकं पाण्डुरोगं वर्णभङ्गं स्वरक्षयम् ॥ १३६ ॥ मूत्रकृच्छ्रमुरोदाहं पार्श्वशूलञ्च नाशयेत् । एतद्राजां प्रदातव्यं बहन्तःपुरचा-

रिणाम् ॥ १३७ ॥ स्त्रीणाञ्च वाप्रजा-
तानां दुर्बलानाञ्च दोहिनाम् । क्लीवा-
नामल्पशुक्राणां जीर्णानामल्परेत-
साम् ॥ १३८ ॥ श्रेष्ठं बलकरं धन्यं हृद्यं
वृष्यं रसायनम् । ओजस्तेजस्करं
स्वर्यमायुष्यं प्राणवर्द्धनम् ॥ १३९ ॥
संवृंहयति शुष्कांश्च पुरुषान्दुर्बले-
न्द्रियान् । सर्वरोगविनिर्मुक्तस्तोय-
सिक्तो यथा द्रुमः । कामदेव इति
ख्यातं सर्पिरुक्तं महागुणम् ॥ १४० ॥

असगन्ध १०० पल, गोखरू ५० पल, जतावर,
विदारीकंद, शालिपर्णी, खैरटो, गिलोय, पीपल
वृक्षके अंकुर, कमलगट्टा, पुनर्नवा, कुम्भेरके फल और
उडद प्रत्येक दश २ पल लेवे । सबको मिलाकर चार
द्रोण जलमे पकावे । जब पकते २ एक द्रोण जल
शेष रह जाय तब उत्तार कर छान लेवे, फिर इस
काथमें दाख, पद्माख, कूठ, पीपल, लालचन्दन, तेज-
पात, नागकेशर, कौचके बीज, नीलकमल, दोनों
सारिवा और जीवनीयगणकी समस्त औषधि(जीवक,
ऋषभक, ऋद्धि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर-
काकोली, मुगवन, सपवन) प्रत्येक एक २ तोला, मिश्री
८ तोले, पुंडक, दोनों प्रकारकी ईखका रस एक २
आढक परिमाण, दूध ४ प्रस्थ और घी १ प्रस्थ डाल
कर मंद मंद अग्निसे यथाविधि घृतको सिद्ध करे। यह
कामदेवघृत—रक्तपित्त, क्षतक्षीण, कामला, वात-
रक्त, हर्लीमक, पाण्डुरोग, विवर्णता, स्वरभंग, सूत्रकृच्छ्र,
उरोदाह और पसलियोकी पीडाको नष्ट करता है। यह
घृत विशेषकर अन्तःपुरमे रहनेवाले राजाओके सेवन
योग्य है । तथा बन्ध्या स्त्री, दुर्बल मनुष्य, नपुंसक,
शुक्रक्षीण, वृद्धमनुष्य और अल्पवीर्यवाले मनुष्यको
अत्यन्त हितकारी है। उत्तम, बलकारक, धन्य, हृदयको
हितकारी, वीर्यको बढ़ानेवाला, रसायन, ओज और
तेजको बढ़ानेवाला, स्वरको सुन्दर करनेवाला, आयु
और प्राणोको बढ़ानेवाला, सूखे और दुर्बल इन्द्रिय-
वाले पुरुषोको पुष्ट करनेवाला और सर्वरोगोसे मुक्त
करनेवाला है । जिस प्रकार जलसे सींचा हुआ वृक्ष
पुष्ट हो जाता है । यह महागुणसम्पन्न घृत “कामदेव”
इस नामसे प्रसिद्ध है ॥ १३०—१४० ॥

अनन्तादिघृत ।

अनन्ता शारिवा पद्मं सलोथ्रं नीलमु-
त्पलम् । कल्केरतेः पचेत्सर्पिः सक्षी-
रं नावनं परम् ॥ १४१ ॥ रक्तपित्तं
प्रशमयेन्नारीणां प्रदरं तथा ॥ १४२ ॥
हस्तपादाङ्गदाहेषु ज्वरे रक्ते तथोर्ध्व-
गे । वासावृतं शतावर्या सिद्धं वा
परमं हितम् ॥ १४३ ॥

अनन्तमूल, गौरिसर, कमल, लोथ और नीलेकमल
इनके कल्के द्वारा दूधमें घृतको पकावे। इस घृतकी
नास देनेसे रक्तपित्तरोग नष्ट होता है और स्त्रियोंका
प्रदर दूर होता है। हांथ पांवकी दाह, ज्वर और ऊर्ध्व-
गत रक्तपित्तमें वासावृत और शतावरीघृत प्रयोग
करने चाहिये ॥ १४१ ॥ १४२ ॥ १४३ ॥

दूर्वादितैल ।

दूर्वामधुकमञ्जिष्ठाद्राक्षेशुरसचन्दनैः ।
शारिवाद्द्वयनक्ताह्वैस्तैलप्रस्थं विपा-
चयेत् ॥ १४४ ॥ क्षीरं चतुर्गुणं दत्त्वा
सिद्धमभ्यञ्जने हितम् । रक्तपित्तहरं
ह्यतद्वल्यं वातघ्नमुत्तमम् । दूर्वादितैल-
मिति ख्यातं शशिवर्णकरं महत् १४५

दूर्व, मुलैठी, मजीठ, दाख, ईखका रस, चन्दन,
दोनों प्रकारका सारिवा और हल्दी इनके कल्के द्वारा
चौगुने दूधमें एक प्रस्थ तेलको पकावे । इस तेलकी
मालिस करे तो यह रक्तपित्तको नष्ट करता है । बल-
कारक, वातनाशक और उत्तम है । यह दूर्वादितैल
चन्द्रमाके समान शरीरके वर्णको उज्ज्वल करता है
॥ १४४ ॥ १४५ ॥

मधुकादिगुटिका ।

मधुकं मधुकं द्राक्षात्वक्षीरीपिप्पली
तथा । त्रिजातस्य त्रयः कर्षाः शर्क-
रायाः पलद्वयम् ॥ १४६ ॥ द्राक्षाम-
धुकखर्जूरं पलांशं श्लक्ष्णचूर्णितम् ।
मधुना गुटिका बद्धा हन्ति सा पित्त-
शोणितम् ॥ १४७ ॥ कासश्वासा-
रुचिच्छर्दिमूर्च्छाहिकामदभ्रमान् ।

क्षतक्षयं स्वरभ्रंशं प्लीहानं दीर्घमारु-
तान् । रक्तनिष्ठीवहृत्पाश्वरूक्षपिपा-
साज्वरानपि ॥ १४८ ॥

मुलैठी, महुआ, दाख, वंशलोचन, पीपल, दाल-
चीनी, इलायची और तेजपात प्रत्येक एक २ तोला,
मिश्री ८ तोले, दाख, मुलैठी और खजूर प्रत्येक
एक २ तोले लेवे, सबको एकत्र पीसकर शहदमे
मिलाकर गोली बनावे । प्रतिदिन एक गोली खाय,
यह गोली—रक्तपित्तको नष्ट करती है तथा खाँसी,
श्वास, अरुचि, वमन, मूर्च्छा, हिचकी, मद, भ्रम,
क्षतक्षय, स्वरभंग, प्लीहा, दीर्घवात, रुधिरकी वमन,
हृदयरोग, पसलीकी पीडा, तृषा और ज्वरको नष्ट
करती है ॥ १४६ ॥ १४७ ॥ १४८ ॥

खण्डकूष्माण्ड ।

वृद्धं पुरातनं वापि कूष्माण्डं कठिनं
दृढम् । त्वक्शिराभिर्विनिर्मुक्तं मन्त्र-
बीजैर्विवर्जितम् ॥ १४९ ॥ स्वित्रं सु-
पिष्टं दृषदि वस्त्रेणैव तु पीडितम् । वि-
शुष्कमातपे किञ्चिद्गृहीयात्तु तुलां
ततः ॥ १५० ॥ औदुम्बरे कटाहे तु
पचेत्प्रस्थं तु सर्पिषः । कृत्वा क्षौद्र-
निभं तस्मिन्क्षिपेत्खण्डशतं भिष-
क ॥ १५१ ॥ कूष्माण्डपीडनात्तोयं
तेनैव विपचेत्पुनः । मुक्तसर्पिर्यदा
पश्येत्तदा पक्वं विनिर्दिशेत् ॥ १५२ ॥
सुस्विन्नपाके निष्पन्ने सर्पिरर्द्धं क्षिपे-
न्मधु । कणापलद्रयं चूर्णं जीरकञ्च
सनागरम् ॥ १५३ ॥ त्रिसुगन्धं सधा-
न्याकं मरिचं शुक्तिपाणिकम् ।
खादेदभिवलापेक्षी पथ्यभुङ्मात्रया
नरः ॥ १५४ ॥ कासं श्वासं क्षतक्षीणं
यक्षमाणं हृदये रुजम् । रक्तपित्तं ज्वरं
दाहं तृट्छिदिश्च विमुञ्चति । वैस्वर्यं
पीनसं कार्श्यं जीमूतमिव मा-
रुतः ॥ १५५ ॥

खुब पकेहुए, पुराने, कठिन और दृढ पेटको
लेकर छीलकर उसकी शिरा अन्त्र और बीज निका-
ल लेवे फिर उसको उसेकर पीसकर वस्त्रमे निचोड़
लेवे, पश्चान् कुछेक धूपमे सुखा लेवे, ऐसे सौपल
पेटको ताम्बेके पात्रमे एक प्रस्थ घीको डालकर
पकावे । जब घी खूब तपकर लाल होजाय तब उस-
में १०० पल खांड डालकर पकावे और पेटको
कपडेमे निचोडनेसे जो पेटका रस निकाला हो उस-
को भी इसमे डालदेवे, जब घी नहीं दीखे तब उसको
पक्क जानकर उतार लेवे । फिर उसमें धीसे आधा
शहद, पीपलका चूर्ण ८ तोले, जीरा सफेद, सोठ,
दालचीनी, इलायची, तेजपात, धनियाँ और काली-
मिरच प्रत्येकका चूर्ण चार चार तोले डालदेवे ।
अग्निका बलाबलपर विचारकर इसकी मात्रा निरूपण
कर भक्षण करे । इसपर पथ्य भोजन करे । इसको
सेवन करनेसे खाँसी, श्वास, क्षतक्षीण, राजयक्ष्मा,
हृदयकी पीडा, रक्तपित्त, ज्वर, दाह, तृषा, वमन,
स्वरभंग, पीनस और कृशता इन सबका इसप्रकार
नाश होता है जिसप्रकार वादलोका वायुसे नाश
होता है ॥ १४९-१५५ ॥

द्वितीयखण्डकूष्माण्ड ।

कूष्माण्डकात्पलशतं सुरिवत्रं निष्कु-
लीकृतम् । पचेत्तप्ते घृतप्रस्थे शनैस्ता-
म्रमये कटे ॥ १५६ ॥ यदा भधुनिभः
पाकस्तदा खण्डशतं न्यसेत् ॥ पिप्प-
लीशृङ्गवेराभ्यां द्वे पले जीरकस्य तु ।
त्वगेलापत्रमरिचं धान्यकानां पला-
र्द्धकम् ॥ १५७ ॥ न्यसेच्चूर्णीकृतं तत्र
दर्व्यां संघट्टयेत्ततः । तत्पक्वं स्थापये-
द्ग्राण्डे दत्त्वा क्षौद्रं घृतार्द्धकम् ॥ १५८ ॥
तद्यथाऽग्निबलं खादेद्रक्तपित्ती क्षतक्ष-
यी । कासश्वासतमच्छर्दितृष्णाज्वर-
निपीडितः ॥ १५९ ॥ वृष्यं पुनर्नवकरं
बलवर्णप्रसादनम् । उरःसन्धानकर-
णं बृंहणं स्वरबोधनम् । अश्विभ्यां
निर्मितं श्रेष्ठं कूष्माण्डकरसायन-
म् ॥ १६० ॥

सौपल पेटेको लेकर उमेयलेवे, फिर उसको छीलकर बीजादि निकालकर टुकड़े कर लेवे । पश्चात् उन पेटेके टुकड़ोको ताँबेके पात्रमे एकप्रस्थ बी डाल कर पकावे । जब वह बी शहदके समान पककर तपजाय तब उसमे १०० पल खाड डाल देवे । जब पाक तयार होजाय तब पीपल, अदरख और जीरा प्रत्येकका चूर्ण दो दो पल, दालचीनी, इलायची, तेजपात, कालीमिरच और वनियॉ प्रत्येकका चूर्ण दो दो तोले डालकर खूत्र करछीसे चलाकर एकमएक करदेवे । फिर उसको उत्तम चिकने वासनमे भरकर रखदेवे और आधाप्रस्थ शहद मिलादेवे । अघ्निका वलावल विचार रक्तपित्त, क्षतक्षय, खांसी, श्वास, तमक, वमन, तृपा और ज्वरसे पीडित मनुष्यको सेवन करावे । यह वृष्य, फिरसे नवीन अवस्था करनेवाला, बल और वर्णको प्रसन्न करनेवाला, उर-सन्धानकारक, पुष्टिकारक, स्वरशोधक और उत्तम हो । इस कूष्माण्ड रसायनको अश्विनीकुमारोने निर्माण किया है ॥ १५६-१६० ॥

वासाखण्ड ।

पञ्चाशच्च पलं स्वित्त्रं कूष्माण्डात्प्रस्थ-
याज्यतः । पक्वं पलशतं खंडं वासा-
क्कायाटके पचेत् ॥ १६१ ॥ शुभाधा-
त्रीधनैर्भाङ्गीत्रिसुगन्धैश्च कर्पिकैः । शौ-
लेयविश्वधान्याकमरिचैश्च पलांशकैः
॥ १६२ ॥ पिप्पलीकुडवश्चैव मधुमा-
नीं प्रदापयेत् । कासं श्वासं क्षयं हि-
क्कां रक्तपित्तं हलीमकम् । हृद्रोगम-
म्लपित्तञ्च पीनसञ्च व्यपोहति ॥ १६३ ॥

प्रथम पेटेको उवाल छीललेवे, फिर चक्कूसे बनारकर टुकड़े करलेवे, ऐसे टुकड़ २०० तोले, घृत ६४ तोले, बूरा १०० पल, पेटेका स्वरस २५६ तोले, अड्डसेका काथ २५६ तोले लेवे । फिर इन सबको विधिपूर्वक मिलाकर पकाव । अवलेहको उत्तमप्रकार से पकवानेपर वशलोचन, आमले, नागरमोथा, भारंगी, तेजपात, इलायची, और दालचीनी प्रत्येक एक एक कर्प, भूरिछरीला, साठ, धनियां और

१ प्रथम ताँबेके पात्रमें कलई करलेवे नहीं तो कस हो जावेगा ।

कालीमिरच प्रत्येक एक एक तोला और पीपल १६ तोले, सबका चूर्ण करके डालदेवे शीतल होनपर ३२ तोले शहद मिलादेवे । यह वानाकूष्माण्ड रसायनी, श्वास, क्षय, हिचकी, रक्तपित्त, हलीमक, हृदयरोग, अम्लपित्त और पीनसरोगको नष्ट करता है ॥ १६१ ॥ ॥ १६२ ॥ १६३ ॥

युक्तसर्पिषि कूष्माण्डे पाके बन्धेनुमु-
द्रया ॥ १६४ ॥

बीने पेटेके टुकड़ोको डालकर मुद्रासे पाक करना चाहिये ॥ १६४ ॥

सूरणपाक ।

कूष्माण्डकविधानेन सूरणः परिकी-
र्तितः । अर्शसां मूढवातानां मन्दा-
भीनां विशेषतः ॥ १६५ ॥

उपरोक्त कूष्माण्डपाककी विधिसे ही सूरणपाक कराना चाहिये । यह सूरणपाक-ववासीर, मूढवात और मन्दाग्निवाले पुरुषोको अत्यन्त हितकारी है ॥ १६५ ॥

क्षीरभिक्षुरसं यूपं पञ्चमूलीकषायज-
म् । अनुपानं प्रयोक्तव्यं खण्डकूष्मा-
ण्डकादिपु ॥ १६६ ॥

दूध, ईखका रस और पंचमूलके काथसे सिद्ध कियाहुआ यूप ये सब खण्डकूष्माण्ड आदिके अनुपान जानने ॥ १६६ ॥

द्वितीयवासाखण्ड ।

तुलामादाय वासायाः पचेदष्टगुणे
जले । तेन पादावशेषेण पाचयेदाढ-
कं भिषक् ॥ १६७ ॥ चूर्णानामभया-
नाश्च खण्डाच्छुद्धाच्छतं तथा । द्वे
पले पिप्पलीचूर्णात् सिद्धशति च
माक्षिकात् ॥ १६८ ॥ कुडवं पलमा-
त्रन्तु चातुर्जातन्तु चूर्णितम् । क्षिप्त्वा
विलोडितं खादेद्रक्तपित्ती यथानल-
म् ॥ १६९ ॥ कासश्वासगृहीतश्च
यक्ष्मणा च प्रपीडितः ॥ १७० ॥

अड्डसेको १०० पल लेकर अठगुने जलमे पकावे जब चौथाभाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छान

लेंवे फिर उसमें हरडोका चूर्ण २५६ तोले, शुद्धखांड १०० पल और पीपलका चूर्ण ८ तोले, मिलाकर पकावे । पककर जीतल होजाय तब उसमें ३२ तोले शहद और चातुर्जातकका चूर्ण ४ तोले मिलाकर खूब करलीसे चलाकर एकमएक करलेवे, अग्निके बलानुसार इसको सेवन करे। यह वासाखण्ड खॉसी, श्वास और राजयक्ष्मारोगवालेको हितकारी है। १६७॥ १६८॥ १६९॥ १७०॥

वासाकुटजकूष्माण्डशतपत्र्यासहामृताः । नित्यमाद्राः प्रयोक्तव्या मानतो द्विगुणामताः ॥ १७१ ॥

अडूसा, कुडा, पेठा, सेवति, और पियावासा तथा गिलेय यह सब गिलेमानसे दुगुने लेने चाहिये १७१॥

खण्डखाद्यलोह ।

क्षीरं चतुर्गुणं लोहाद्भृतं द्विगुणमुत्तमम् । चूर्णपादश्च वैडङ्गं दद्यान्मधुसिते समे ॥ १७२ ॥ एकीकृत्य पचेच्छोहं खादेदग्निबलं यथा । रक्तपित्तं जयत्युग्रं खण्डखाद्यं रसं स्मृतम् १७३॥

लोहेका चूर्ण १ भाग, दूध ४ भाग, घी २ भाग और लोहेसे चौथाई भाग वायविडंगका चूर्ण लेवे पहले लोहकी भस्म, दूध और घीको तांबेके वासनमें पकाकर फिर वायविडंगका चूर्ण मिलादेवे, जब जीतल होजाय तब समान भाग मिश्री और शहद मिलाकर चिकने वासनमें भरकर रखदेवे । आग्निका बलावल विचार कर सेवन करे । यह खंडखाद्यरस-उग्र रक्तपित्तको नष्ट करता है ॥ १७२ ॥ १७३ ॥

अमृताख्य लोहरसायन ।

अमृता त्रिवृता दन्ती श्रावणी खदिरो वृषः । चित्रको भृङ्गराजश्च कोकिलाक्षः सपुष्करः ॥ १७४ ॥ पुनर्नवाबलाकाशाः शिशुमोरटदारकाः । स्नुही रविरसो दर्भः कुशास्थि सहपीवरी ॥ १७५ ॥ गवाक्षी वरुणः कन्दश्चविका तालमूलिका । नागबला कणामूलं कुष्ठं ब्राह्मणयष्टिका ॥ १७६ ॥ पलोन्मितानि सर्वाणि जलद्रोणे विपाचयेत् । अष्टभागा-

वशिष्टं तु कषायमुपकल्पयेत् ॥ १७७ ॥ त्रिफलायास्तथा प्रस्थं जलाष्टगुणपाचितम् । तस्मादष्टावशेषस्तु कषायस्तु परिशुतः ॥ १७८ ॥ माक्षिकेण हतश्चापि पुटितश्च यथाविधि । आयसं चूर्णितं पूतं पलं षोडशसम्मितम् ॥ १७९ ॥ पलान्यध्रस्य चत्वारि तावन्ति गन्धकस्य च । द्वे पले च रसस्यापि पुटितस्य यथाविधि १८० ॥ गुडस्य च पलान्यष्टौ सितायाश्चाथ पौत्तिके । रक्तपित्तेऽथ खण्डस्य मत्स्यखण्ड्या वाथ कासके ॥ १८१ ॥ गुग्गुलोद्विपलं दत्त्वा प्रस्थार्धं सर्पिषस्तथा । एवं पाकं विधिज्ञस्तु पचेच्छोहं समाहितः ॥ १८२ ॥ शीतिऽवतार्य मधुनः क्षिपेदष्टपलं भिषक् । माक्षिकस्य विशुद्धस्य द्विपलं रजसः क्षिपेत् ॥ १८३ ॥ शिलाजतोस्तथा चूर्णं पलाद्धं सम्मितं भिषग् । अथैषां प्रक्षिपेच्चूर्णं पलमात्रं पृथक् पृथक् ॥ १८४ ॥ त्रिकटु त्रिफला दन्ती त्रिवृता जीरकद्वयम् । गायत्रिसारं तालीशं धान्याकं मधुयष्टिका ॥ १८५ ॥ शुभा रसांजनं शृङ्गी चित्रकं चव्यम्स्तकम् । चातुर्जातककङ्कालं लवङ्गं जातिकं फलम् ॥ १८६ ॥ द्राक्षाखर्जूरकं चूर्णं पलार्धं सम्मितं भिषक् । एष लोहवरः श्रीमान् सर्वव्याधिप्रणाशनः ॥ १८७ ॥ यत्र यत्र प्रयुञ्जीत तत्तदाशु विनाशयेत् । रक्तपित्तेऽप्यल्पित्ते च क्षये कुष्ठे ज्वरेऽरुचौ ॥ १८८ ॥ दुर्नाम्नि चोदरे शूले ग्रहण्याश्चामवातके । वातरक्ते मूत्रकृच्छ्रे प्रमेहे शर्करागदे ॥ १८९ ॥ अस्योपयोगान्ननुजस्तारुण्यमधिगच्छति । ब्रह्मचर्येण कूर्वाते प्लुतं माक्षिकसर्पि-

षा ॥ १९० ॥ माषकं रतिकावृद्ध्या
यावदष्टौ च माषकाः । वर्जयेद्विदलं
सूपं मांसं चानूपसम्भवम् ॥ १९१ ॥
ककारपूर्वकं सर्वं प्रयत्नेन विवर्जयेत् ।
अमृताख्यो वरो लोहः सर्वत्रैवोप-
युज्यते । अनेन जन्तवः स्वस्था नी-
रुजः सन्ति नान्यथा ॥ १९२ ॥

गिलोय, निसोत, दन्ती, गोरखमुण्डी, खैर, अडूसा, चीता, भांगरा, तालमसाना, पोहकरमूल, पुनर्नवा, खिरैटी, कॉस, सहिजना, ईरकी जड, विधारा, थूहर का दूध, आकका दूध, डाम, कुशा, हडसंकरी, शतावर, इन्द्रायण, वरना, कमलकद, चव्य, मुसली, गंगेरन, पीपलामूल, कूठ और भारंगी प्रत्येक औषधि चार २ तोले लेकर एक द्रोण जलमें पकावे। जब पकते २ आठवाँ भाग जल शेष रह जाय तब उतारकर छान लेवे, फिर एक प्रस्थ त्रिफलेको लेकर अठगुने जलमें पकावे जब आठवाँ भाग जल शेष रह जाय तब उतार कर छान लेवे और उसमें मिला देवे। पश्चात् इस काथमें अच्छे प्रकारसे पुटपाकसे किया और सोनामाखीसे मारा हुआ लोहेका चूर्ण १६ पल, अभ्रककी भस्म १६ तोले, शुद्धगंधक १६ तोले, अच्छे प्रकारसे पुटपाक किया हुआ पारा ८ तोले, गुड ८ पल और जो पित्तकी अविकता हो तो गुडके स्थानमें खांड डाले, रक्तपित्तके लिये खांड डाले और खांसीके लिये इसमें मिश्री मिलावे। शुद्ध गूगल ८ तोले, और ३२ तोले घी डालकर लोहपाकको जाननेवाला विधिपूर्वक पकावे। जब पककर तैयार होजाय तब गीतल होनेपर ३२ तोले शहद मिलावे और शुद्ध सोनामाखीका चूर्ण ८ तोले और शुद्ध गिलाजीत २ तोले मिलावे तथा त्रिकुटा, त्रिफला, दन्ती, निसोत, जीरा, कालाजीरा, खैरसार, तालीगपत्र, धनियाँ, मुलैठी, बगलाचन, रसाँत, काकडागिगी, चीता, चव्य और नागरमोथा प्रत्येकका चूर्ण चार ४ तोले, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, गीतलचीनी, लौंग, जायफल, दाख और खजूर प्रत्येकका चूर्ण दो दो तोले मिलादेवे, सबको यथाविधिसे मिलाकर एक उत्तम चिकने वासनमें भरकर रख देवे। यह श्रीमान् लोह सर्व लोहोमें उत्तम है और सर्व प्रकारके रोगोको हरनेवाला है। इसको जिस रोगमें दिया जावे यह उसको नष्ट करता है।

रक्तपित्त, अम्लपित्त क्षय, कुष्ठ, ज्वर, अर्शोच, ववासीर, उदररोग, शूल, सप्रहणी, आमवात, वातरक्त, मूत्र-कृच्छ, प्रेमह और शर्करारोग हो नष्ट करता है। इस को रोवन करनेसे मनुष्य तरुण होजाता है उसको सेवन करनेवाला मनुष्य ब्रम्हचर्य्य रहे और इस लोहको घी और शहदमें मिलाकर सेवन करे। इसकी मात्रा एक रत्तीसे बढाकर आठमासे पर्यन्त है। इसपर द्विदल अन्न, अनपदेशके जीवोका मांस और ककारादि पदार्थ थे सम्पूर्ण छोडदेवे। यह अमृताख्यलोह सर्वरोगोंमें प्रयोग करना उचित है। इसके प्रभावसे सर्वप्राणी निरोग और स्वस्थ हांते है ॥ १७४ ॥ १९२ ॥

खण्डादिलोह ।

शतावरी छिन्नरुहा वृषमण्डतिका-
वलाः । तालमूली च गायत्री त्रिफ-
लायास्त्वचस्तथा ॥ १९३ ॥ भाङ्गी-
पुष्करमूलस्य पृथक् पञ्चपलानि तु ।
जलद्रोणे विपक्तव्यमष्टभागावंशोपि-
तम् ॥ १९४ ॥ दिव्यौषधिहतस्यापि
साक्षिकेण हतस्य च । पलं च द्वादशं
देयं रुक्मलोहस्य चूर्णितम् ॥ १९५ ॥
खण्डतुल्यं घृतं देयं पलषोडशकं बु-
धैः । पचेत्ताम्रमये पात्रे गुडादेः पाक-
वद्यथा ॥ १९६ ॥ प्रस्थाद्धं मधुनो दे-
यं शुभाशमजतुकं त्वचम् । शृङ्गं वि-
डङ्गं कृष्णा च शुष्कजाजी पलं
पलम् ॥ १९७ ॥ त्रिफला धान्यकं पत्रं
द्वयं मरिचकेशरम् । चूर्णं दत्त्वा सुम-
थितं स्निग्धभाण्डे निधापयेत् ॥ १९८ ॥
यथाकालं प्रयुञ्जीत विडालपदकं
ततः । गव्यक्षीरानुपानञ्च सेव्यं मां-
सरसं पयः ॥ १९९ ॥ गुरुवृष्यान्नपा-
नानि स्निग्धं मांसादि बृहणम् । रक्त-
पित्तं प्रदुष्टञ्च क्षयं कासं विशेषतः ॥
॥ २०० ॥ वातरक्तं प्रेमहञ्च शीतपि-
त्तं वर्मिं कृमम् । श्वयथुं पाण्डुरोगञ्च
कुष्ठं प्लीहोदरं तथा ॥ २०१ ॥ आनाहं

रक्तस्त्रावश्च अम्लपित्तं निहन्ति च ।
चक्षुष्यं वृहणं वृष्यं माङ्गल्यं प्री-
तिवर्धनम् ॥ २०२ ॥ आरोग्यं पुत्रदं
श्रेष्ठं कायाग्निबलवर्द्धनम् । श्रीकरं
लावकं खण्डखाद्यं प्रकीर्तितम् ॥
॥ २०३ ॥ छागं पारावतं मांसं तित्ति-
रिकृकराः शशाः । कुलिङ्गाः कृष्ण-
साराये तेषां मांसानि योजयेत् ॥ २०४ ॥
नारिकेरपयःपानं सुनिषण्णकवास्तु-
कम् । शुष्कमूलकजीवाह्वं पटोलं वृ-
हतीफलम् ॥ २०५ ॥ फलं वार्त्ताक-
पक्वान्नं खज्जूरं स्वादुदाडिमम् । क-
कारपूर्वकं यच्च मांसं चानूपसंभवम् ।
वर्जनीयं विशेषेण खण्डकाद्यं सम-
श्रुता ॥ २०६ ॥

शतावर, गिलोय, अडूसा, गोरखमुण्डी, खिरटी,
मुसली, खैर, त्रिफला, दालचीनी, भारंगी, पोहकरमूल
प्रत्येक औषधि बीस २ तोले लेकर एक द्रोण जलमे
पकावे। जब आठवाँ भाग जल शेष रह जाय तब उतार-
कर छानलेवे, फिर इसमें मैतशिल और सोनामाखीसे
मारा हुआ तीक्ष्ण लोहेका चूर्ण ४८ तोले, सफेद खांड
६४ तोले और घी ६४ तोले मिलाकर ताँबेके पात्रमे
गुडादि पाकके समान पकावे । जब पककर शतिल
हो जाय तब ३२ तोले शहद मिलावे तथा वंशलोचन,
गिलाजीत, दालचीनी, काकडागिगी, वायविडग,
पीपल, सोठ और जरिरा प्रत्येकका चूर्ण चार चार तोले,
त्रिफला, धनियाँ, तेजपात, काली मिरच और नागके-
शर प्रत्येकका चूर्ण दो २ तोले डाले, सबको एकत्र
मथकर एक चिकने वासनमे भरकर रख देवे। समय-
को विचार इस औषधिको एक तोला भक्षण करे
और ऊपरसे गौका दूध पीवे । इसपर मांसरस, दूध,
भारी और वृष्य अन्नपान, स्निग्धपदार्थ और मांसादि
वृहण पदार्थ भोजन करे । यह उत्तमलोह-दुष्ट
रक्तपित्त, क्षय, खाँसी, वातरक्त, प्रमेह, शीतपित्त, वमन,
कुम, सूजन, पाण्डुरोग, कोढ, झीहा, उदररोग, आनाह,
रक्तस्त्राव और अम्लपित्तको नष्ट करता है । नेत्रोंको
हितकारी, पुष्टिकारक, वीर्यजनक, मगलकारक,
प्रीतिवर्द्धक, आरोग्यदायक, पुत्रदायक, श्रेष्ठ,

जठराग्नि और बलको बढ़ानेवाला, लक्ष्मीजनक
और लावककर, यह खण्डखाद्य नामसे कहा है ।
इसपर वकरा, परेवा, तीतर, कृकर, (केकडा)
खरगोश, कुलिग(चिडा) और कृष्णसार मृग इनका
मांस सेवन करना चाहिये । तथा नारियलका जल,
शिरिआरी, बथुआ, सूखी मूली, जीवक शाक, पटोल
(परवल), कटेरीके फल, वैगुन, पके आम, खजूर
और मोठा अनार ये सब तथा ककारनामवाले सम्पूर्ण
पदार्थ और अनूपदेगोके जीवोका मांस ये सब खण्ड-
खाद्य लोहेको सेवन करनेवाला त्याग देवे ॥ १९३—
२०६ ॥

यच्च पित्तज्वरे प्रोक्तं बहिरन्तश्च भे-
षजम् । रक्तपित्ते हितं तच्च क्षीणक्षत-
हितं च यत् ॥ २०७ ॥

पित्तज्वरमे जो वाह्य और आभ्यन्तर चिकित्सा
कही है तथा क्षीणक्षतमे जो चिकित्सा कही है वह
सब रक्तपित्तमे हितकारी है ॥ २०७ ॥

शीतावगाहसेकाद्याः प्रशस्ता रक्त-
पित्तिनाम् । दाडिमामलकं विद्वान-
म्लसात्म्याय दापयेत् ॥ २०८ ॥ शा-
लिषष्टिकनीवारचणमुद्गमसूरकाः ।
श्यामाक्ताश्च प्रियंग्वश्च भोजनं रक्त-
पित्तिनाम् ॥ २०९ ॥

शीतलजलमे घुसकर स्नान करना और शीतल
जलको शरीरपर छिडकना रक्तपित्तमे हितकारक है ।
जिनको खटाई सात्म्य है उनको अनार और आमले
सेवन करने चाहिये । रक्तपित्तमे भोजनके लिये
शालिचावल, साँठी चावल, नीवार, चने, मूंग, मसूर,
समा और कँगनी यह धान हितकारी है ॥ २०८ ॥
॥ २०९ ॥

पटोलनिम्बवेत्राग्रतण्डुलीयादयो हि-
ताः । पारावतकपोतांश्च लावान्न-
क्ताक्षवर्णकान् ॥ २१० ॥ शशान्
कपिश्लानैणान् हरिणान्कालपुच्छ-
कान् । रक्तपित्तहरान्विद्याद्रसांस्त्वे-

१ कँगनी धान गरम और रुक्ष अधिक होता है अतः
वह नहीं देना चाहिये इसी प्रकार नीवार भी जानो ।

षां प्रयोजयेत् ॥ ईषदम्लाननम्लांश्च
घृतभृष्टान् सशर्करान् ॥ २११ ॥

जाकके लिये परवल, नीम, वेतका अग्रभाग और चौलाई आदि लेने चाहिये । परेवा, कबूतर, लवा चकोर, वत्तक, खरगोश, कपिञ्जल, एण, हरिण और कालपुच्छ मृग इनके मांसका रस रक्तपित्तनाशक है इसलिये रक्तपित्तमे इनका मास सेवन करना चाहिये तथा किंचिन् अम्ल और मधुर पदार्थोंको घीमे भूनकर मिश्री मिलाकर सेवन करे ॥ २१० ॥ २११ ॥

सामान्यो हितयोगेषु द्रव्यशक्तिं स-
मीक्ष्य हि । प्रयोज्यो रक्तपित्तादौ
योगो वातादिजे गदे ॥ २१२ ॥

वातादिरोगोमे सामान्य जो हितकारक योग कहे हैं उनके द्रव्योंके गुणोंको विचारकर रक्तपित्तमे प्रयोग करे ॥ २१२ ॥

इति वंगसेने भाषाटीकायां रक्तपित्ताधि-
कार संपूर्ण ।

अथ राजयक्ष्मनिदान ।

वेगरोधात् क्षयाच्चैव साहसाद्विषमा-
शनात् । त्रिदोषो जायते यक्ष्मा गदो
हेतुश्च दुष्ट्यात् ॥ १ ॥

मल और मूत्रादि वेगोंको रोकनेसे, एव अत्यन्त मैथुनसे क्षीण होनेसे, साहस, अर्थात् (अपनेसे नहीं करनेयोग्य जो भारी काम उनको करनेसे) अथवा बलवान्के साथ बैर करनेसे और विषम अर्थात् विरुद्ध भोजन या भोजनपर भोजन किम्बा अजीर्णम भोजन और कभी अधिक कभी कम भोजन करनेमे तीनों दोष दुष्ट होकर राजयक्ष्मा रोगको उत्पन्न करते हैं ॥ १ ॥

कफप्रधानैर्दोषैस्तु रुद्धेषु रसवत्सु ।
अतिव्यवायिनो वापि क्षीणे रेतस्य-
नन्तराः । क्षीयन्ते धानवः सर्वे ततः
शुष्यन्ति मानवः ॥ २ ॥

कफकी प्रधानतावाले वातादिदोष जब कुपित होते हैं तब उनके कुपित होनेसे रसकी वहनेवाली नाडी बंद हो जाती है । अथवा अत्यन्त मैथुन करनेसे जब वीर्य क्षीण होता है तब उसके क्षीण होनेसे अन्य मांसादिक धातुएं भी क्षीण हो जाती हैं तब मनुष्य सूखने लगता है ॥ २ ॥

पूर्वलक्षण ।

श्वासाङ्गसादकफसंस्त्रवतालुशोषव-
म्यग्निसादमदपीनसकासनिद्राः ।
शोषे भविष्यति भवन्ति स चापि
जन्तुः शुक्लेक्षणो भवति मांसपरो
रिरंसुः ॥३॥ स्वप्नेषु काकशुकशल्लकिं
नीलकण्ठगृध्रास्तथैव कपयः कृकला-
सकाश्च । तं वाहयन्ति सनदीर्विज-
लाश्च पश्येच्छुष्कांस्तरून्पवनधूमद-
वादितांश्च ॥ ४ ॥

जब राजयक्ष्मा उत्पन्न होनेको होता है तब उससे पहले श्वास, शरीरमे शिथिलता, मुखके द्वारा कफका निकलना, तालका सूखना, वमन, अग्निकी मंदता, मद (नसा), पीनस, खोसी, निद्राका आना ये लक्षण होते हैं । वह मनुष्य मासके खानेकी ओर स्त्रीप्रसंग करनेकी इच्छा करता है उसके नेत्र सफेद होते हैं । तथा स्वप्नमे कौआ, तोता, सेई, नीलकंठ, गीघ, बन्दर और गिण्ट इनपर अपनेको बैठा देखता है, एवं जलरहित नदी, पवन, वुआ, दावाग्निसे पीडित और सूखे ऐसे वृक्षोंको देखता है ॥ ३ ॥ ४ ॥

राजयक्ष्माके त्रिरूपलक्षण ।

अंसपार्श्वाभितापश्च सन्तापः करपा-
दयोः । ज्वरः सर्वाङ्गश्चेति लक्षणं
राजयक्ष्मणः ॥ ५ ॥

कन्धे और पमलियोंमें सन्ताप, हाथ और पाँवोंमें दाह और सब शरीरमें ज्वर ये राजयक्ष्माके सामान्य तीन लक्षण हैं ॥ ५ ॥

षड्रूपलक्षण ।

कासो ज्वरः पार्श्वशूलं स्वरभेदो
महाराचिः । अग्निमान्द्यं विजानी-
याल्लक्षणं राजयक्ष्मणः ॥ ६ ॥

खाँसी, ज्वर, पसलियोंमें शूलकी पीडा, स्वरभंग, अत्यन्त अरुचि और मंदाग्नि ये छः लक्षण राजयक्ष्मामे होते हैं ॥ ६ ॥

दोषभेदसं एकादशरूपलक्षण ।

स्वरभेदोऽनिलाच्छूलं सङ्कोचश्चांस-
पार्श्वयोः । ज्वरो दाहोऽतिसारश्च
पित्ताद्रक्तस्य चागमः ॥ ७ ॥ शिरसः
परिपूर्णत्वमभक्तच्छन्द एव च । का-
सः कण्ठस्य चोर्ध्वसो विज्ञेयः कफ-
कोपतः ॥ ८ ॥

वातके कोपसे स्वरभंग, शूल, कन्धे और पसलि-
योंमें संकोच होता है । पित्तके कोपसे ज्वर, दाह,
अतिसार और रुधिरका स्राव होता है । और कफके
कोपसे शिरमें भारीपन, भोजनमें अरुचि, खाँसी
और गलेका पड़जाना ये लक्षण होते हैं ॥ ७ ॥ ८ ॥

द्वितीयषड् रूपलक्षण ।

भक्तद्वेषो ज्वरः कासः श्वासः शो-
णितदर्शनम् । स्वरभेदश्च जायन्ते
षड् रूपे राजयक्ष्मणि ॥ ९ ॥

भोजनमें अरुचि, ज्वर, खाँसी, रुधिरका निक्-
लना और स्वरभेद ये छः लक्षण राजयक्ष्मामे होते
हैं ॥ ९ ॥

साध्यासाध्यता ।

एकादशभिरेभिर्वा षड्भिर्वापि सम-
न्वितम् । कासातिसारपार्श्वार्त्तिस्व-
रभेदारुचिज्वरैः ॥ १० ॥ त्रिभिर्वा
पीडितं लिङ्गैर्ज्वरकासासृगामयैः ।
जह्याच्छोषार्दितं जन्तुं स्वमिच्छन्
विपुलं यशः ॥ ११ ॥

ऊपर जो स्वरभेदादि ग्यारह लक्षण कहे हैं उनसे
युक्त अथवा खाँसी, अतिसार, पसलियोंमें पीडा,
स्वरभेद, अरुचि और ज्वर इन छ लक्षणोयुक्त,
अथवा ज्वर, खाँसी और रुधिरका गिरना इन तीनों
लक्षणोयुक्त ऐसे शोपरोगीको विपुल यशका चाहने
वाल वैद्य त्याग देवे ॥ १० ॥ ११ ॥

सर्वैरर्थैस्त्रिभिर्वापि लिङ्गैर्मांसबलक्ष-
यैः । युक्तो वर्ज्यश्चिकित्स्यस्तु सर्व-
रूपोऽप्यतोऽन्यथा ॥ १२ ॥

सर्वे लक्षणो युक्त, अथवा छः लक्षणो युक्त,
किंवा तीन लक्षणोयुक्त ऐसे शोपरोगीकी यदि उसके
मांस, बलादिक्षय हो गये हो तो चिकित्सा नहीं
करनी चाहिये और जो उसके सम्पूर्ण लक्षण भी हो
परन्तु उसके मांस और बल क्षय न हुए हो तो
उसकी यत्नपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १२ ॥

महाशनं क्षीयमाणमतिसारप्रपीडि-
तम् । शूनमुष्कोदरश्चैव यक्षिमणं
परिवर्जयेत् ॥ १३ ॥ शुक्लाक्षमन्त्रद्वे-
ष्टारमूर्ध्वश्वासनिपीडितम् । कृच्छ्रेण
बहुमेहतं यक्ष्मा हन्तीह मानवम् १४ ॥

जो राजरोगी बहुत भोजन करनेपर भी दिन प्रति-
दिन क्षीण होता जाय, अतिसारसे पीडित हो, जिसके
अंडकोशो और उदरपर सूजन आगई हो, जिसकी
भाँखें सफेद होगी अन्नमें अरुचि हो, ऊर्ध्वश्वासस
पीडित और जो अत्यन्त कष्टके साथ वारंवार मूते
ऐसे राजयक्ष्मारोगीको वैद्य त्याग देवे ॥ १३ ॥ १४ ॥

परं दिनसहस्रं तु यदि जीवति मान-
वः । सुभिषग्भिरुपक्रान्तस्तरुणः
शोषपीडितः ॥ १५ ॥ उपक्रमेदा-
त्मवन्तं दीप्ताग्निमकृशं नरम् ॥ १६ ॥

जिसकी उत्तम वैद्योद्वारा चिकित्सा की गई हो
और वह तरुण हो तो ऐसा राजयक्ष्मारोगी एक
हजार दिनतक जी सकता है । सारांग यह है कि
इस रोगकी एक हजार दिन तककी परम अवधि है ।
जिन मनुष्योंकी इन्द्रिये वशमे है, जिनकी अग्नि
दीपन है और जिनका शरीर कृश नहीं हुआ है ऐसे
राजयक्ष्मारोगियोंकी चिकित्सा करनी चाहिये
॥ १५ ॥ १६ ॥

व्यवायशोकादिजन्यक्षय- रोगके लक्षण ।

व्यवायशोकवार्धक्यन्यायामाऽध्व-
प्रशोषितान् । व्रणोरःक्षतसंज्ञौ च
शोषिणौ लक्षणैः शृणु ॥ १७ ॥

अथ व्यवायशोपी, शोकशोपी, वार्द्धक्यशोपी, व्यायामशोपी, अध्वशोपी, व्रणशोपी और उरःक्षतशोपी, इनके यथाक्रमसे लक्षण कहते हैं ॥ १७ ॥

व्यवायशोपीके लक्षण ।

व्यवायशोपी शुक्रस्य क्षयलिङ्गैरुपद्रुतः । पांडुदेहो यथापूर्वं क्षीयन्ते चास्य धातवः ॥ १८ ॥

व्यवायशोपी अर्थात् अत्यन्त मथुन करनेसे जो क्षयरोग उत्पन्न होता है उसमें सम्पूर्ण शुक्रक्षयके लक्षण होते हैं और उसरोगीका शरीर पीला हो जाता है । फिर शुक्रसे मज्जा, मज्जासे अस्थि, अस्थिसे मेद, मेदसे मांस, मांससे रुधिर और रुधिरसे रसका क्षय होता है इसीको विलोम क्षय कहते हैं ॥ १८ ॥

शोकशोपीके लक्षण ।

प्रध्यानशीलः स्रस्ताङ्गः शोकशोष्यपि तादृशः । विना शुक्रक्षयकृतैर्विकारैरुपलक्षितः ॥ १९ ॥

शोकशोपी अर्थात् अत्यन्त शोक चिन्तादि करनेसे जो शोपरोग होता है उसमें अत्यन्त चिन्ता हो, और सम्पूर्ण अंग शिथिल हो इसमें शुक्रक्षयके विना व्यवायशोपीके सब लक्षण होते हैं ॥ १९ ॥

जराशोपीके लक्षण ।

जराशोपी कृशो मन्दो नष्टबुद्धिबलेन्द्रियः । कम्पनोऽरुचिमांभ्रकांस्यपात्रहतस्वरः ॥ २० ॥ घृणति श्लेष्मणा हीनो गौरवारुचिपीडितः । संप्रघृतास्यनासाक्षः शुष्करूक्षमलच्छविः ॥ २१ ॥

जराशोपी अर्थात् वृद्धताके कारण जो शोपरोग होता है उसमें रोगी कृश हो जाता है तथा उसकी बुद्धि बल और इन्द्रिये मन्द अथवा नष्ट हो जाती है, कम्प हो, अरुचि, फूटे कोंसेके पात्रके समान शब्द हो, वारंवार थूकनेपर भी कफ नहीं निकले, शरीरमें भारीपन, अरुचिसे पीडित, मुख, नासिका और नेत्रोंमेंसे पानी गिरे सूखा और रूखा मल उत्तरे, शरीर रूखा और सूखा हो ॥ २० ॥ २१ ॥

अध्वशोपीके लक्षण ।

अध्वशोपी च स्रस्ताङ्गः संभृष्टप्ररूपच्छविः । प्रसुप्तगात्रावयवः शुष्कक्लोमगलाननः ॥ २२ ॥

अध्वशोपी अर्थात् अधिक मार्ग चलनेसे जो शोक-रोग होता है उसमें रोगीका शरीर शिथिल तथा मुनेहुणके समान और खरदरा होजाता है और उसके सम्पूर्ण शरीरके अवयव सुन्न होजाते हैं तथा क्लोम (तृपा लगनेका स्थान), कण्ठ और मुख सूखजाते हैं ॥ २२ ॥

व्यायामशोपीके लक्षण ।

व्यायामशोपीभ्रयिष्टमेभिरेव सन्वितः । लिङ्गैरुरःक्षतकृतैः संयुक्तश्च क्षतं विना ॥ २३ ॥

व्यायामशोपी अर्थात् अत्यन्त परिश्रम या अधिक व्यायाम करनेसे जो शोपरोग होता है उसमें अध्वशोपीके लक्षण और क्षतके विना उरःक्षतके सब लक्षण होते हैं ॥ २३ ॥

व्रणशोपीके लक्षण ।

रक्तक्षयाद्वेदनाभिस्तथैवाहारयन्त्रणात् । व्रणितस्य भवेच्छोषः स चासाध्यतमो मतः ॥ २४ ॥

व्रणरोगीको अत्यन्त रुधिरके क्षय होनेसे, व्रणकी अत्यन्त पीडासे और आहारके थकनेसे जो शोप होता है उसको असाध्य जानना ॥ २४ ॥

अथ चिकित्सा ।

व्यवायशोषिणां क्षीररसमांसाज्यभोजनैः । सकलैर्मधुरैर्हृद्यैर्जीवनीयरूपाचरेत् ॥ २५ ॥

व्यवायशोपी मनुष्योंके लिये दूध, मांसरस और घीके साथ भोजन करना हितकारी है । तथा सम्पूर्ण मधुर, हृदयको हितकारी एवं प्राणरक्षक पदार्थ उपयोगी हैं ॥ २५ ॥

हर्षणाश्वासनैः क्षीरैः स्निग्धैर्मधुर-
शीतलैः । दीपनैर्लघुभिश्चान्नैः शोक-
शोषमुपाचरेत् ॥ २६ ॥

शोकशोपी मनुष्योंकी—आनन्द, धीरज, स्निग्ध,
मधुर, शीतलपदार्थ, दीपन और हलके अन्न इनके
द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २६ ॥

आस्यासुखैर्दिवास्वप्नशान्तिर्मधुरबृंह-
णैः । तक्रमांसरसाहारैरध्वशोषिण-
माचरेत् ॥ २७ ॥

अध्वशोपी रोगियोंकी—उत्तम आसन, विछौने,
गद्दी तकिये लगाकर बैठाना, दिनमें सोना, शीतल,
मधुर और पुष्टिकारक पदार्थ, तक्र और मांसरसका
आहार इनके द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २७ ॥

व्रणशोषं जयेत्स्निग्धैर्दीपनैः स्वादु-
शीतलैः । ईषदम्लैरनम्लैर्वा यूषमां-
सरसादिभिः ॥ २८ ॥

चिकने, दीपन, स्वादिष्ट, शीतल, किंचित् अम्ल
और मधुर पदार्थोंका यूप तथा मांसरस, इनके द्वारा
व्रणशोपीकी चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २८ ॥

व्यायामशोषिणं स्निग्धैः क्षतक्षयहि-
तैर्हिमैः । उपाचरेज्जीवनीयैर्विधिना
श्लेष्मिकेण तु ॥ २९ ॥

व्यायामशोपी मनुष्योंकी—स्निग्ध, क्षतक्षयपर हित-
कारी, शीतल, जीवनीयगणकी औषधियों और कफ-
कारक पदार्थोंके द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए २९ ॥

बलिनो बहुदोषस्य पञ्चकर्मणि का-
रयेत् । यक्ष्मिणः क्षीणदेहस्य तत्कृतं
स्याद्विषोपमम् ॥ ३० ॥

बहुतदोषयुक्त, बलवान् क्षयरोगीको पञ्चकर्म
(वमन, विरेचन, नस्य, निरूहवस्ति और अनुवासन
वस्ति) कराने चाहिए, परन्तु क्षीण दोषवाले
क्षयरोगीको ये पञ्चकर्म कराने विपके समान
अहितकारी है ॥ ३० ॥

शुक्रायत्तं बलं पुंसां मलायत्तञ्च जी-
वितम् । अतो विशेषात्संरक्षेद्यक्ष्मि-
णो मलैरेतसी ॥ ३१ ॥

बल शुक्रके आधीन है, और जीवन मलके आधीन
है, इस कारण राजयक्ष्मवाले रोगीके वीर्य और मलकी
यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए ॥ ३१ ॥

शालिषष्टिकगोधूमयवमुद्गादयः शु-
भाः । मद्यानि जाङ्गलाः पक्षिमृगाः
शस्ता विशोषिणाम् ॥ मूलकानां
कुलित्थानां यूपैर्वा सूपसंस्कृतैः ॥ ३२ ॥

राजयक्ष्मामे शालिधान, साठीधान, गेहूँ, जौ और
मूँग आदि सब अन्न हितकारी हैं तथा मदिरा और
जांगलदेशके पशु—पक्षियोंका मांस और मूली तथा
कुलथीका यूप अथवा ढाल यह सब संस्कार कियेहुए
पदार्थ हितकारी हैं ॥ ३२ ॥

सपिप्पलीकं सयवं सकुलित्थं सना-
गरम् । दाडिमामलकोपेतं स्निग्ध-
माजं रसं पिबेत् ॥ ३३ ॥ तेन षड्विनि-
वर्तन्ते विकाराः पीनसादयः ॥ ३४ ॥

पीपल, जौ, कुलथी, सोंठ, अनार और आमले
इनसे युक्त और घृतादिके द्वारा स्निग्ध किया हुआ
वकरेका मांसरस पीवे इससे पीनसादि छः प्रकारके
रोग दूर होते हैं ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

षडङ्गयूष ।

द्रव्यतो द्विगुणं मांसं सर्वतोऽष्टगुणं
जलम् । पादस्थं संस्कृतं चाल्यं षड-
ङ्गो यूष उच्यते ॥ ३५ ॥

द्रव्यसे दुगुना मांस, सबसे आठगुना जल और
जब पकते २ चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब घी
ढालकर सिद्ध करे इसको षडङ्ग यूप कहते हैं ३५ ॥

धान्यकं पिप्पलीविश्वदशमूलीजलं
पिबेत् । पार्श्वशूलज्वरश्वासपीनसा-
दि निवर्तयेत् ॥ ३६ ॥

धानियाँ, पीपल, सोंठ और दशमूलीकी समस्त
औषधियों इनका काथ बनाकर पान करनेसे पसलि-
याँका शूल, ज्वर, श्वास और पीनसादि रोग नष्ट
होते हैं ॥ ३६ ॥

अश्वगन्धामृता भाङ्गीं दशमूली वचा
वृषा । पुष्करातिविषे घ्नन्ति क्षयं
क्षीररसाशिनः ॥ ३७ ॥

असगन्ध, गिलोय, भारंगी, दशमूल, वच, अहूसा पोहकरमूल और अतीस, इनका काथ पीवे और ऊपरसे दूध तथा मांसरसको भोजन करे तो राजयक्ष्मा रोग नष्ट होता है ॥ ३७ ॥

कापिमांसं समादाय श्लक्ष्णचूर्णन्तु कारयेत् । तत्पिबेत्क्षीरसंयुक्तं क्षयरोगहरं परम् ॥ ३८ ॥

बन्दरक सूखे मांसको पीसकर चारीक चूर्ण करलेवे, फिर उस चूर्णको दूधके साथ पान करनेसे क्षयरोग नष्ट होता है ॥ ३८ ॥

हारिणं छागमांसन्तु श्लक्ष्णचूर्णिकृतं शुभम् । अजाक्षीरेण पालव्यं क्षयव्याधिविनाशनम् ॥ ३९ ॥

और बकरेके मांसको सुखाकर खूब चारीक पीसकर चूर्ण करलेवे । फिर उस चूर्णको बकरीके दूधके साथ पीवे तो क्षयरोग नष्ट होता है ॥ ३९ ॥

दशमूलवचारास्त्रापुष्करसुरदारुनागरेः कथितम् । पेयं पार्श्वशिरोरुक्क्षयकासादिशान्तये सलिलम् ॥ ४० ॥

दशमूल, वच, रायसन, पोहकरमूल, देवदारु और सोंठ इनका काथ, पार्श्वशूल, शिरोरोग, राजयक्ष्मा और कासादिरोगोंको नष्ट करता है ॥ ४० ॥

ककुभत्वङ्नागबलावानरिबीजानि चूर्णितं पयसि । पक्वं मधुघृतयुक्तं ससितं यक्ष्मादिकासहरम् ॥ ४१ ॥

अर्जुनकी छाल, गंगरेन और कौंचके बीज, इनका चूर्ण करके दूधमे डालकर पकावे, फिर उसमे शहद, घी और घूरा डालकर पान करे तो राजयक्ष्मा, खौंसी आदि रोग दूर होते हैं ॥ ४१ ॥

स्थिरापुनर्नवैरण्डवासर्षभाः सजीवकाः । श्वदंष्ट्राभीरुलांगूलीविदारीहंसपादिकाः ॥ ४२ ॥ बृहत्याँ बृश्चिकाली च द्वे भेदे मर्कटी तथा । शोषगुल्मानिलथासकासपित्तहरो गणः ॥ ४३ ॥

गालिपर्णी, पुनर्नवा, अंड, अहूसा, ऋपभक, जीवक, गोखरु, गतावर, जलपीपल, विदारीकंद, हंसपदी, कटेरी, बडी कटेरी, बृश्चिकाली, भेदा, महामेदा और कौल इन औषधियोका समूह-शोष, गुल्म, वात, थास, खौंसी और पित्तको नष्ट करता है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

द्विपञ्चमूलीमगधाधान्यनागरजं जलम् । चातुर्जातकसंयुक्तं पिबेन्नित्यं क्षयातुरः । कासज्वरादिशमनं बलपुष्टिविवर्द्धनम् ॥ ४४ ॥

दशमूल, पीपल, धनियों और सोठ इनके काथमे चातुर्जातका चूर्ण डालकर क्षयरोगी नित्य पान करे तो खौंसी और ज्वराविरोग नष्ट होते हैं तथा बल और पुष्टिकी वृद्धि होती है ॥ ४४ ॥

समूलपत्रच्छदपल्लवाया रसः प्रयोज्यो मद्यन्तिकायाः । मासोपयोगेन समस्तलिङ्गं यक्ष्माणमुग्रं हरति प्रसह्य ॥ ४५ ॥

मूल, पत्र और कोमल पल्लवो सहित मोतियेके पञ्चाङ्गको कूटकर रस निचोड लेवे, इस रसको एक महीने पर्यन्त सेवन करे तो सम्पूर्ण लक्षणयुक्त उमराजयक्ष्मा रोग नष्ट होता है ॥ ४५ ॥

छागमांसं पयश्छागं छागं सर्पिः सनागरम् । छागोपसेवा शयनं छागमध्ये तु यक्ष्मलुत् ॥ ४६ ॥

बकरेका मांस, बकरीका दूध और बकरीका घी सोठ मिलाकर खानेसे और बकरी, बकरोकी सेवा करने और उनके बीचमे सोनेसे राजयक्ष्मा रोग नष्ट होता है ॥ ४६ ॥

कूष्माण्डकफलोत्थेन रसेन परिषेपितम् । लाक्षाकर्षद्वयं पीत्वा जयेद्रक्तक्षयं नरः ॥ ४७ ॥

दो तोले लाखको लेकर पेटके रसमे पीसकर पान करनेसे रक्तक्षय रोग शांत होता है ॥ ४७ ॥

व्योषं शतावरी त्रीणि फलानि द्वे बले तथा । सर्वामयहरो योगः सेव्यो लोहरजोऽन्वितः ॥ ४८ ॥ एतद्वक्षःक्षतं

हन्ति कण्ठजां विविधां रुजम् ।
राजयक्ष्माणमत्युग्रं बाहुस्तम्भमथा-
दितम् ॥ ४९ ॥

त्रिकुटा, गतावर, त्रिफला, खिरैटी और कंधी
इन सबका चूर्ण करके लोहेका चूर्ण मिलाकर सेवन
करनेसे सर्वप्रकारके रोग दूर होते हैं तथा उरःक्षत,
अनेकप्रकारके कण्ठरोग, अत्यन्त उग्र राजयक्ष्मा,
बाहुस्तम्भ और आर्दररोग नष्ट होता है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥

मधुनाट्या विडङ्गाश्मजतुलोहवृता-
भयाः । व्रन्ति यक्ष्माणमत्युग्रं सेव्य-
माना हिताशिनः ॥ ५० ॥

वायविडंग, त्रिलाजीत, लोहा, घी और हरडका
चूर्ण अद्दमे मिलाकर हितकारी भोजन, करनेवाला
मनुष्य सेवन करे तो अत्यन्त उग्र राजयक्ष्मा नष्ट
होता है ॥ ५० ॥

चव्यव्योषविडङ्गानि चूर्ण कृत्वा लिहे-
न्नरः । सर्पिर्मधुभ्यां मुच्येत क्षयरौ-
गान्न संशयः ॥ ५१ ॥

चव्य, त्रिकुटा और वायविडंग इनका चूर्ण
करके घी और शहदमें मिलाकर चाटे तो क्षयरोग
निःसन्देह दूर जाता है ॥ ५१ ॥

दिनकरदीधितिशोषितपारावतमां-
समनुदिनं नियतम् । यो लेढि मधु-
वृताभ्यां स जयति यक्ष्माणमत्युग्र-
म् ॥ ५२ ॥

परेवाके मांसको सूर्यके धूपमें प्रतिदिन सुखाकर
शहद और घीमें मिलाकर चाटे तो अत्यन्त उग्र
राजयक्ष्मा रोग नष्ट होता है ॥ ५२ ॥

कृष्णाद्राक्षासितालेहः क्षयहा क्षौद्र-
तैलवान् । मधुसर्पिर्युतो वाश्वगन्धा-
कृष्णासितोद्भवः ॥ ५३ ॥

पीपल, दाख, मिश्री, शहद और तेल इनका
अवलेह बनाकर चाटे अथवा असगन्ध और पीपलके
चूर्णको मिश्री, शहद और घीमें मिलाकर चाटे तो
क्षयरोग नष्ट होता है ॥ ५३ ॥

शर्करामधुसंयुक्तं नवनीतं लिहेत्
क्षयी । क्षीराशी लभते पुष्टिमतुल्ये
चाज्यमाक्षिके ॥ ५४ ॥

क्षयरोगी-मिश्री, शहद और घी इन
तीनोंको मिलाकर सेवन करे अथवा न्यूनाधिक
मात्रासे शहद और घी मिलाकर खाय और दूधका
भोजन करे तो क्षयरोगी पुष्ट होता है ॥ ५४ ॥

शतपुष्पा नतं कुष्ठं मधुकंदेवदारु
च । पिष्ट्वा लेपः ससर्पिण्कः पृष्ठपा-
श्वीशरुक्षु च ॥ ५५ ॥

सोया, तगर, कूठ, मुलैठी और देवदारु इनको
पीसकर घीमें मिलाकर पीठ, पसली, कन्धे तथा
वक्षस्थलपर लेप करे तो शूलकी पीडा दूर होती
है ॥ ५५ ॥

चूर्णं काकुभमिष्टं वासकरसभावितं
बहून्वारान् । मधुवृतसितोपलाभि-
लिह्यं क्षयकासरक्तपित्तहरम् ॥ ५६ ॥

अर्जुनकी छाल और ईटका चूर्ण करके अनेक-
वार अद्दसेके रसमें भावना देकर शहद, घी
और मिश्री मिलाकर चाटे तो राजयक्ष्मा, खौसी
और रक्तपित्त नष्ट होता है ॥ ५६ ॥

जीवन्त्याद्यनुवर्तन ।

जीवन्ती शतबीजा च विकसा सुपु-
नर्नवा । अश्वगन्धाभया भाङ्गी
तर्कारी मधुकं बला ॥ ५७ ॥ विदा-
री सर्षपा कुष्ठं तंडुलीयाऽतसीफल-
म् । माषास्तिलाश्च किट्टश्च सर्वमे-
कत्र चूर्णयेत् ॥ ५८ ॥ यवचूर्णश्च द्वि-
गुणं दध्ना युक्तं समाक्षिकम् । एतदुद्घर्त्त-
नं कार्य्यं पुष्टिर्वर्णवलप्रदम् ॥ पुष्टये
शोषिणां कार्य्यमभ्यंगोद्घर्त्तनादि-
कम् ॥ ५९ ॥

जीवन्ती, सफेद दूब, मजीठ, पुनर्नवा, असगन्ध,
हरड, भारंगी, अरणी, मुलैठी, खिरैटी, विदारीकन्द,
सरसो, कूठ, चौलाई, अलसी, उडद और तिल तथा
तिल की खल इन सबको एकत्र चूर्ण कर लेवे और
सब चूर्णसे दुगुना जौका चूर्ण लेवे । फिर सबको
दही और शहदमें मिलाकर उपटन बनावे । इस

उपटनको शरीरमें मलनेसे पुष्टि, बल और वर्णकी वृद्धि होती है । यह उपटन राजधमारोगियोंको पुष्ट करनेके लिये नित्यप्रति मालिश करना चाहिए ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥

पिवेन्नागबलामूलं सार्धं कर्षं विवर्द्धितम् । पलं क्षीरयुतं मांसं क्षीरवर्ती
निरन्नभुङ्क्ते ॥ ६० ॥ एष प्रयोगः पुष्ट्यायु-
र्वलारोग्यकरः परः ॥ ६१ ॥

गौरनकी जड़को प्रतिदिन डेढ़ रूप बढ़ाकर चार तोले दूधके साथ नित्य एक महानेक सेवन करे और इसपर दूधका भोजन करे तो पुष्टि, आयु, बल और आरोग्य बढ़ता है ॥ ६० ॥ ६१ ॥

सितोपलादिलेह ।

सितोपला तु गोक्षीरी पिप्पली बहु-
लात्वचः । अन्त्यादूर्ध्वं द्विशुणितं ले-
हयेन्मधुसर्पिषा ॥ ६२ ॥ चूर्णितं प्राश-
येदेतच्छ्वासकासज्वरापहम् । पार्श्व-
शूलञ्च मन्दाग्निं सुप्तजिह्वामरोचकम् ।
हस्तपादाङ्गदाहेषु ज्वरे रक्ते तथो-
र्ध्वगे ॥ ६३ ॥

मिश्री १६ भाग, वगलोचन ८ भाग, पीपल ४ भाग, छोटी इलायची २ भाग और दालचीनी १ भाग लेवे सबका चूर्ण कर शहद और घीमें मिलाकर चाटे तो खाँसी, श्वास, ज्वर, पसलियोंकी पीडा, मन्दाग्नि, जिह्वाकी जडता, अरुचि, हाथ, पांव और शिरकी दाह, ज्वर और ऊर्ध्वगत रक्तपित्त रोग नष्ट होता है ॥ ६२ ॥ ६३ ॥

तालीसादिचूर्णगुटिका ।

तालीसपत्रं मरिचं नागरं पिप्पली
शुभा । यथोत्तरं भागवृद्ध्या त्वगेला
चार्द्धभागिके ॥ ६४ ॥ पिप्पल्यष्ट-
गुणा चात्र प्रदेया सितशर्करा । कास-
श्वासारुचिहरं तच्चूर्णं दीपनं परम् ॥
॥ ६५ ॥ हत्पाण्डुग्रहणीदोषघ्नीहशो-
षज्वरापहम् । छर्द्यतीसारशूलघ्नं मूढ-
वातानुलोमनम् ॥ ६६ ॥ कल्पयेद्दु-

टिकाञ्चैव चूर्णं पक्ता सितापलम् ।
गुटिका अग्निसंयोगाच्चूर्णान्त्वयुतरा
स्मृता ॥ ६७ ॥

तालीसपत्र १ भाग, मिर्च २ भाग, मोठ ३ भाग, पीपल ४ भाग, वगलोचन ५ भाग, दालचीनी और इलायची आधा २ भाग, पीपल ८ भाग और सबकी बराबर मिश्री लेवे । सबको एकत्र मिलाकर चूर्ण बनावे । इस तालीसादि चूर्णको भेवन करनेसे खाँसी, ज्वर और अरुचि नष्ट होती है, तथा अग्नि दीपन होती है । यह चूर्ण हृदय, पाण्डुरोग, मग्नर्णा, प्लीहा, शोष, ज्वर, वमन, अतीसार और शूलको नष्ट करता है, एवं टुटवायुको अनुलोमन करता है । और जो इसकी गुटिका बनानी हो तो अग्निके राधागमे चीनीकी चासनी बनाकर बड़ी बड़ी गोली बनावे, यह गोली चूर्णसे हल्की है ॥ ६४ ॥ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥

महातालीसादिचूर्ण ।

तालीसं चित्रकं व्योषं दाडिमं ति-
त्तिडीयकम् । एतेषां पलिकान् भा-
गान् दीप्यको गजपिप्पली ॥ ६८ ॥
यवानी शतभेद्यश्च कृमिघ्नं ग्रन्थिकं
तथा । चव्यश्च केसरश्चैव हपुषाजाजि
धान्यकम् ॥ ६९ ॥ जातीफलं ल-
वङ्गश्च त्रिसुगन्धं कणा शुभा । एते-
षां कर्षमेकन्तु द्विशुणा शर्करा भवेत्
॥ ७० ॥ पीनसं राजयक्षमाणं हृद्रोगं
वातपैत्तिकम् ॥ मूत्रकृच्छ्रोन्नत्ररोगान्
पाण्डुरोगं हलीमकम् ॥ ७१ ॥ अशी-
तिं वातजान् रोगांश्चत्वारिंशच्च पै-
त्तिकान् । विंशतिं श्लैष्मिकांश्चैव ह्ये-
कादशगलग्रहान् ॥ ७२ ॥ ज्वराञ्छूलानि
चाशांसि भगन्दरांश्च शोष-
कान् । वैस्वर्यहननश्चैव ऊरुस्तम्भं
हनुग्रहम् ॥ ७३ ॥ महातालीसमित्ये-
तत्सर्वान् व्याधीन् व्यपोहति ॥ ७४ ॥

तालीसपत्र, चीता, त्रिकुटा, अनार और इमली प्रत्येक चार २ तोले लेवे । अजमोद, गजपीपल, अजवायन, चूका, वायविडंग, पीपलामूल, चव्य, केसर, हाऊवेर, जीरा, धनियाँ, जायफल, लौंग, दालचीनी, इलायची, तेजपात, पीपल और वंशलोचन, ये प्रत्येक औषधि एक एक तोला लेकर चूर्ण बनावे और सब चूर्णसे दुगुनी मिश्री लेवे । इस चूर्णको सेवन करनेसे पीनस, राजयक्ष्मा, हृद्रोग, वातपैत्तिक, मूत्रकृच्छ्र, नेत्ररोग, पाण्डुरोग, हलीमद, अस्सी प्रकारके वातरोग, चालीस प्रकारके पित्तरोग, बीसप्रकारके कफरोग, ग्यारह प्रकारके गलरोग, ज्वर, शूल, ववासीर, भगन्दर, शोष, स्वरकी हीनता, ऊरुस्तम्भ और हनुग्रह आदि सब प्रकारके रोग नष्ट होते हैं ॥ ६८-७४ ॥

तालीसाद्यचूर्ण ।

तालीसमारिचनागरपिप्पलीतन्मूलवृ-
टिफलत्वचः । जातिफलमृणालंत्वक्-
क्षीरीमुस्ततुल्यांशम् ॥ ७५ ॥ चूर्णं
त्रिगुणसितोपलमेतदुच्यं प्रदीपनं ह-
ृद्यम् । ज्वररक्तपित्तकासश्वासक्षयगु-
ल्मशूलघ्नम् ॥ ७६ ॥ कृम्यतीसारग्र-
हणीहृद्रोगामृटमारुतं दाहम् । कर-
चरणादिषु शमयति पांडुगदं कण्ठ-
रोगञ्च ॥ ७७ ॥

तालीसपत्र, कालीमिरच, सोंठ, पीपल, पीपलामूल, इलायची, दालचीनी, जायफल, मृणाल, (कमलकी नाल), वंशलोचन और नागरमोथा ये सब समान भाग लेवे और सबसे तिगुनी सफेद मिश्री लेवे सबको एकत्र चूर्ण कर लेवे । यह तालीसादि चूर्ण रुचिकारक, अन्नको दीपन करनेवाला, हृदयको हितकारी, तथा ज्वर, रक्तपित्त, खाँसी, श्वास, क्षय, गुल्म, शूल, कृमि, अतीसार, संग्रहणी, हृदयरोग, मूडवात, हाथ पाँवकी दाह, पाण्डुरोग और कण्ठरोगको नष्ट करता है ॥७५॥७६॥७७॥

कर्पूरादिचूर्ण ।

कर्पूरचोचकं कोलजातीफलदलैः स-
मैः । लवङ्गमांसीमरिचैः कृष्णाशु-
ण्ठीविवर्धितैः ॥ ७८ ॥ चूर्णं सिता

समं हृद्यं रोचनं क्षयकासजित् । वै-
स्वयर्थश्वासगुल्मार्शश्छर्दिकण्ठामया-
पहम् ॥ ७९ ॥ प्रयुक्तं चान्नपानेषु भेष-
जद्वेषिणां हितम् ॥ ८० ॥

कपूर, दालचीनी, कंकोल, जायफल और तेजपात ये समान भाग, लौंग १ भाग, वालच्छड २ भाग, कालीमिरच ३ भाग, पीपल ४ भाग और सोठ ५ भाग लेवे और सबकी बराबर मिश्री लेवे, सबको एकत्र पीसकर चूर्ण बनावे । यह कर्पूरादिचूर्ण—हृदयको हितकारी, रोचक, क्षय, खाँसी, स्वरक्षीणता, श्वास, गुल्म, ववासीर, वमन और कण्ठरोगोंको नष्ट करता है । इसको सब अन्नपानोमें प्रयोग करना चाहिए । यह औषधियोसे द्वेष करनेवाले मनुष्योंको अत्यन्त हितकारी है ॥७८-८०॥

जातीफलादिचूर्ण ।

जातीफलं विडङ्गानि चित्रकं तगरं
तिलाः । तालीसं चन्दनं शुण्ठी ल-
वङ्गं चोपकुश्विका ॥ ८१ ॥ कर्पूरं
चाभया धात्री मरिचं पिप्पली तुगा ॥
एषामक्षसमा भागाश्चातुर्जातकसं-
युताः ॥ ८२ ॥ पलानि सप्त भङ्गायाः
शर्करा समयोजिताः । जयेत्कासं
क्षयं श्वासं ग्रहणीमग्निमार्दवम् ॥ ८३ ॥
वातश्लेष्मोद्भवांश्चान्यान् प्रतिश्या-
यानरोचकान् । एतानेव रुजो ह-
न्ति वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा ॥ ८४ ॥

जायफल, वायविडंग, चीता, तगर, तिल, तालीसपत्र, चन्दन, सोठ, लौंग, इलायची, कपूर, हरड आमले, कालीमिरच, पीपल और वंशलोचन प्रत्येक औषधि एक २ तोला लेवे और चारुजातकफी चारों औषधि ४ तोले, भांग ७ पल लेवे और सबके बराबर मिश्री लेवे सबको एकत्र पीसकर चूर्ण बनावे । यह जातीफलादिचूर्ण—खाँसी, क्षय, श्वास, संग्रहणी, अन्नकी मंदता, वात कफसे उत्पन्न हुए रोग, प्रतिश्याय और अरुचि इन सबको इस प्रकार नष्ट करता है जिस प्रकार वज्र वृक्षोंको नष्ट करता है ॥ ८१-८४ ॥

शृंगादिचूर्ण ।

शृङ्गचर्जुनाश्वगन्धनागबलापुष्करा-
ह्याच्छिन्नरुहाः । तालीसादिसमेता
लेहा मधुसर्पिर्भ्यां यक्ष्महराः ॥ ८५ ॥

काकडाजिगी, अर्जुन, असगन्ध, गंगरन, पोहक-
रमूल और गिलोय तथा सम्पूर्ण तालीसादिचूर्णकी
औपधि लेवे । सबका एकत्र चूर्ण करके गहद और
धीमे मिलाकर सेवन करे । यह राजयक्ष्माको नष्ट
करता है ॥ ८५ ॥

यवान्यादिचूर्ण ।

यवानी तित्तिडीकश्च नागरश्चाम्लवे-
तसम् । दाडिमं बदरश्चाम्लं कार्षि-
कानुपकल्पयेत् ॥ ८६ ॥ धान्यसोव-
र्चलाजाजी वराङ्गं चार्द्धकषितम् ।
पिप्पलीनां पलत्रैकं द्वे पले मरिचस्य
च ॥ ८७ ॥ शर्करायाश्च चत्वारि प-
लान्येकत्र चूर्णयेत् । जिह्वासंशोधनं
हृद्यं तच्चूर्णं भक्तरोचकम् ॥ ८८ ॥ ह-
त्प्रीहपार्थशूलघ्नं विबन्धानाहनाश-
नम् । कासश्वासहरं ग्राहि ग्रहण्यशो-
विबन्धनुत् ॥ ८९ ॥

अजवायन, इमली, सोठ, अम्लवेत, अनार और
खट्टेवेर प्रत्येक एक एक तोला, धनियाँ, कालानमक,
जीरा और दालचीनी प्रत्येक औपधि आधा २ तोला,
पीपल ४ तोले, कालीमिरच ८ तोले और मिश्री १६
तोले लेवे सबको एकत्र पीसकर चूर्ण बनावे । यह
यवान्यादि चूर्ण-जिह्वाको शुद्ध करनेवाला, हृदयको
हितकारी, भोजनमे रुचिकारक, तथा हृदयरोग,
प्रीहा, पाण्डुगूल, विबन्ध, अफारा, खॉसी, श्वास,
सग्रहणी और वधासीरको दूर करता है, तथा मल-
रोधक है ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥

सूक्ष्मैलादिचूर्ण ।

सूक्ष्मैलाकेसरं त्वक् च पत्रं ताली-
शजं तुगा । पृथिवका दाडिमं धान्यं
जीरकश्च द्विकार्षिकम् ॥ ९० ॥ पि-
प्पली पिप्पलीमूलं चव्यचित्रकनाग-

रम् । मरिचं दीप्यकश्चैवं वृक्षाम्लं
चाम्लवेतसम् ॥ ९१ ॥ अजमोदाज-
गन्धा च दधित्थश्चेति कार्षितम् । प्र-
देयमिह शुद्धायाः कर्करायाश्चतुष्प-
लम् ॥ ९२ ॥ चूर्णमस्ति प्रदातव्यं
परमं रुचिवर्धनम् । प्लीहांकासमथा-
शांसि श्वासं शूलं ज्वरं वमिमम् ॥ ९३ ॥
निहन्ति दीपयत्यग्निं बलवर्णप्रदं पर-
म् । वातानुलोमनं हृद्यं कण्ठजिह्वा-
विशोधनम् ॥ ९४ ॥

छोटी इलायची, नागकेजर, दालचीनी, तेजपात,
तालीसपत्र, बंगलोचन, बडो इलायची, अनार, धनियाँ
और जीरा प्रत्येक औपधि दो दो तोले, पीपल,
पीपलामूल, चव्य, चीता, सोंठ, कालीमिरच, अजवा-
यन, विपाविल, अमलवेत, अजमोद, वनतुलसी और
कैथ प्रत्येक एक एक तोला और शुद्ध अकरकरा
चार पल लेवे, सबको एकत्र पीसकर चूर्ण करे । यह
सूक्ष्मैलादि चूर्ण-अत्यन्त रुचिकारक तथा प्रीहा,
खॉसी, ववासीर, ग्वास, गूल, ज्वर और वमनको दूर
करता है । अग्निको दीपन करता है, बल और वर्णको
बढाता है, वायुको अनुलोमन करता, हृदयको हित-
कारी, कंठ और जिह्वाको शुद्ध करता है ॥ ९० ॥
॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥

अमृतादिघृत ।

गुडूचीशारिवाह्रस्वापञ्चमूलीबला-
वृषम् । समूलपत्रशाखन्तु पृथग्दशप-
लानि च ॥ ९५ ॥ जलद्रोणे विपक्त-
व्यं यावत्पादावशेषितम् । पिप्पली
चन्दनं लोध्रं ह्रीबिरोशीरपर्पटम् ॥ ९६ ॥
पाठाभूनिम्बयष्ट्याह्वत्रायन्तीनीलिमु-
त्पलम् । मुस्तकेन्द्रयवाः शुण्ठी कटु-
कं सदुरालभम् ॥ ९७ ॥ त्वक्पत्रं वृ-
षमूलञ्च कल्कैरर्धपलैर्भिषक् । अजा-
क्षीरेण तत्तुल्यं घृतप्रस्थं विपाचयेत्
॥ ९८ ॥ हन्ति यक्ष्माणमत्युग्रं रक्तपि-
त्तं त्रिदोषजम् । श्वासकासक्षतक्षीण-
दाहशोथरुजापहम् ॥ ९९ ॥

गिलोय, मारिवा, लघु पंचमूल, खिरैटो और अडूसा, ये प्रत्येक औषधि जड़, पत्ते, शाखासहित दश दण्ड पल लेकर एक ट्रोण जलमें पकावे। जब चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे, फिर उसमें पीपल, चन्दन, लोध, सुगंधवाला, खस, पित्तपापड़ा, पाढ, चिरायता, मुलैठी, त्रायमाण, नीलकमल, नागरमोथा, इन्द्रजौ, सोठ, मिरच, धमारा, दालचीनी, तेजपात और अडूसेकी जड़, प्रत्येकका कल्क दो दो तोले, बकरीका दूध एक प्रस्थ और बकरीका अथवा गौका घी १ प्रस्थ लेवे । सबको मिलाकर यथाविधिसे घृतको सिद्ध करो। यह अमृतादिघृत—अत्यन्त उग्र राजयक्ष्मा, त्रिदोषज रक्तपित्त, श्वास, खाँसी, क्षत, क्षोण, दाह और सूजनको दूर करता है ॥ ९५—९९

वासादिघृत ।

वासागृत्तारिष्टनिदग्धिकानां रसेऽश्वगन्धेभयलार्जुनानाम् । सिद्धं सपञ्चोषणपुष्कराणां कल्केर्वृतं छागप्यस्तु शोषे ॥ १०० ॥

अडूसा, गिलोय, नीम, कटेरी, असगन्ध, गंगारेन और अर्जुनकी छाल इनके म्वरस अथवा काथ तथा पंचोषण और पोहकरमूलके कल्कके द्वारा बकरीके दूधमें घृतको सिद्ध करो। यह वासादिघृत-राजयक्ष्मामें अत्यन्त हितकारी है ॥ १०० ॥

बलादिघृत ।

बलाविदारिगन्धाभ्यां विदार्यामिलकेन च । सिद्धं सलवणं सर्पिनस्यं पेयमनुत्तमम् ॥ १०१ ॥

खिरैटी, शालपर्णी, विदारिकंद और आमले इनके कल्कके द्वारा घृतको सिद्ध करे, इसमें नमक मिला कर, नास देवे अथवा इसको पान करे तो राजयक्ष्मा रोगमें अत्यन्त हितकारी है ॥ १०१ ॥

खर्जूरादिचूर्ण ।

घृतं खर्जूरमृद्रीकामधुकैः सपरूषकैः । सपिप्पलकिंवेस्वर्यकासश्वासज्वरापहम् ॥ १०२ ॥

खर्जूर, दाह, फालसे और पीपल इनके कल्कके द्वारा घृतको सिद्ध करो। यह घृत-स्वरहीनता, खाँसी, श्वास और ज्वरको नष्ट करता है ॥ १०२ ॥

एलादिमन्थ ।

एलाजमोदामलकाभयाक्षगायत्रिनिम्वाशनसालसारान् । विडङ्गभङ्गातकाचित्रकश्च कटुत्रिकाम्भोदसुराष्टिकांस्तु ॥ १०३ ॥ पक्का जले तेन पचेत्तु सर्पिस्तस्मिंस्तु सिद्धे त्ववतारिते च । त्रिंशत्पलान्यत्र सितोपलाया दद्यात्तुगाक्षीरिपलानि षट् च ॥ १०४ ॥ प्रस्थे घृतस्य द्विगुणश्च दद्यात् क्षौद्रं ततो मन्थकृतं विदध्यात् । पलं पलं प्रातरतो लिहेच्च पश्चात्पिबेत् क्षीरमतन्द्रितश्च ॥ १०५ ॥ एतद्विधेयं परमं पवित्रं दोषघ्नमायुष्यतमं तथैव । यक्ष्माणमाशु व्यपहन्ति नूनं पाण्ड्यामयश्चैव भगन्दरश्च ॥ न चात्र किञ्चित्परिवर्जनीयं रसायनश्चैतदुपास्यमानम् ॥ अत्र चतुर्गुणक्राथेन कल्कमिदं पाच्यम् ॥ १०६ ॥

इलायची, अजमोद, हरड, बहेडा, भामला, खैर, नीम, विजयसार, सालका सार, वायविडग, भिलावे, चीता, त्रिकुटा, नागरमोथा और सोरठकी मिट्टी इनको जलमें पीसकर काथ बनावे। उस काथमें इन्हीं औषधियोंका चौथाई भाग कल्क डालकर एक प्रस्थ घृतको पकावे। जब उत्तम विधिसे पकजाय तब उतार लेवे। फिर उसमें सफेद मिश्री १२० तोला, वंशलो वन २४ तोले और शहद २ प्रस्थ डालकर खूब चलाकर एकमएक करलेवे। प्रातःकाल प्रतिदिन इसमेंसे चार तोले प्रमाण लेकर चाटे और इसके ऊपर दूध पीवे। यह एलादिमन्थ अत्यन्त पवित्र है। दोषनाशक, अवस्थास्थापक, राजयक्ष्माको बहुत थोड़े ही कालमें नष्ट करता है तथा पाण्डुरोग और भगन्दर रोगको दूर करता है। इसपर कुछ भी परहेज नहीं है। यह उत्तम एलादिमन्थ रसायन सेवन योग्य है। यहा चौगुने काथमें कल्क पकाना चाहिए ॥ १०३ ॥ ॥ १०४ ॥ १०५ ॥ १०६ ॥

दशमूलीशृतघृत ।

दशमूलीशृतात् क्षीरात् सर्पिर्गुडदि-
यात्रवम् । सपिप्पलीकं सक्षौद्रं घृतं
स्वरविशोधनम् ॥ १०७ ॥ शिरःपा-
श्वीशशूलघ्नं कासश्वासज्वरापह-
म् ॥ १०८ ॥

दशमूलको दूधमें आटाकर दही जमा देवे, फिर उसको मथकर घी निकाल लेवे । इस घृतमें पीपल और शहद डालकर सेवन करे । यह घृत—स्वरको शुद्ध करनेवाला, तथा गिर, पार्श्व और कंधोंके शूल खाँसी, श्वास और ज्वरका नाशक है ॥ १०७ ॥ १०८

षडङ्गघृत ।

पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्याचित्रकना-
गरैः । सयावशूकैः सक्षौरैः स्रोतसां
शोधनं घृतम् ॥ कल्कोऽप्रपादिकः
कार्यः क्षीरश्चापि चतुर्गुणम् ॥ १०९ ॥

पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, सोंठ और जवा-
खार इनके कल्कके द्वारा दूधमें घृतको मिद्ध करे ।
यह घृत—शरीरके स्रोतोंको शुद्ध करनेवाला है ।
यहां कल्क चौथाई भाग और दूध चौगुना लेना
चाहिए ॥ १०९ ॥

जीवन्त्यादिघृत ।

जीवन्ती मधुकं द्राक्षा फलानि कुट-
जस्य च । शुण्ठी पुष्करमूलञ्च व्या-
घ्रीगोधुरकं बला ॥ ११० ॥ नीलो-
त्पलं चामलकी त्रायमाणा दुराल-
भा । पिप्पली च समञ्जिष्टा घृतं वै-
द्यो विपाचयेत् ॥ १११ ॥ एतद् व्या-
धिसमूहस्य रोगेशस्य समुत्थितम् ।
रूपमेकादशविधं सर्पिरुग्रं व्यपोह-
ति ॥ ११२ ॥

जीवन्ती, मुलैठी, दाख, इन्द्रजौ, सोठ, पोहकर-
मूल, कटेरी, गोखरू, खिरैटी, नीलांत्पल, आमले,
त्रायमाण, धमासा, पीपल और मजीठ इनके काथ
और कल्कके द्वारा वैद्य उत्तम प्रकार घृतको पकावे ।
यह घृत राजयक्ष्मासे उत्पन्न रोगोंके समूहको नष्ट

करता है और एकादशलक्षणयुक्त उग्र राजयक्ष्मा
रोगको नष्ट करता है ॥ ११० ॥ १११ ॥ ११२ ॥

पिप्पलीघृत ।

पिप्पलीगुडसंयुक्तं छागक्षीरयुतं घृत-
म् । एतदाग्निविवृद्धयर्थं सर्पिश्च क्षय-
कासिनाम् ॥ ११३ ॥

पीपल, गुड और चक्रुगेके दूधमें घीको सिद्ध करे।
यह घृत—क्षय और गौरीरोगनालोकी अग्निको
वढानेवाला है ॥ ११३ ॥

पाराशरघृत ।

यष्टीबलागुडूच्यल्पपञ्चमूलतुलां पचे-
त् । द्रोणेऽपामष्टभागस्थे तत्र पात्रे
पचेद्घृतम् ॥ ११४ ॥ धात्रीविदारी-
धुरसे त्रिपात्रे पयसोऽर्मेण । सुपिष्टे-
र्जीवनीयैश्च पाराशरमिदं घृतम् ।
ससैन्धवं राजयक्ष्माणमुन्मूलयति शी-
लितम् ॥ ११५ ॥

मुलैठी, खिरैटी, गिलेय और लघुपंचमूलकी
औपवियें ये सब १०० पल लेकर एक द्रोण जलमें
पकावे। जब आठवाँ भाग जल शेष रहजाय तब उसमें
एक आठक घी, आमले, विदारीकद और ईशका रस
तीन आठक, दूधमें पीपीहुई जीवनीय गणकी औप-
धियोका कल्क १ द्रोण सबको एकत्र मिलाकर घृतको
सिद्ध करे । इसमें सैन्धानमक डालकर विधिपूर्वक
सेवन करे । यह पाराशरघृत- राजयक्ष्मारोगको
जडसे नष्ट करता है ॥ ११४ ॥ ११५ ॥

श्वदंष्ट्रादिघृत ।

श्वदंष्ट्रां सदुरालभां चतस्रः पर्णिनीं
बलाम् । भागानेतान्मितान् कृत्वा
पलं पर्पटकस्य च ॥ ११६ ॥ पचेदष्ट-
गुणे तोये चतुर्भागावशेषिते । रसे तु
पूते द्रव्याणामेषां कल्कं समाचरेत् ।
शटीपुष्करमूलानां पिप्पली त्रायमा-
णयोः ॥ ११७ ॥ आमलक्याः कि-
रातस्य तिक्तस्य कुटजस्य च । फ-
लानां शारिवायाश्च सुपिष्टानक्षरस-

भिमिमान् ॥ ११८ ॥ तैः साधयेद्वृत-
प्रस्थं क्षीरं द्विगुणितं भिषक् । ज्वरं
दाहं भ्रमं शोषमंसपार्श्वशिरोरुजम्
॥ ११९ ॥ तृष्णाच्छर्दिमतीसारमेत-
त्सर्पिर्व्यपोहति । पचेदष्टगुणेनात्र घृ-
तं ज्ञेयं चिकित्सकैः ॥ १२० ॥

गोखरू, धमासा, जालिपर्णी, पृश्निपर्णी, मापपर्णी,
मुद्गपर्णी, खिरैंटी और पित्तपापडा, प्रत्येक औषधि
चार चार तोले लेकर अठगुने जलमें पकावे । जव
पकते २ चौथाई भाग जल शेष रहजाय तव उतार-
कर छानलेवे फिर कचूर, पोहकरमूल, पीपल, त्राय-
माण, आमले, चिरायता, कुटकी, इन्द्रजी और
सरिवा इन प्रत्येकका कल्क एक २ तोला, घी १
प्रस्थ, दूध २ प्रस्थ, सबको एकत्र मिलाकर विधिपूर्वक
घृतको सिद्ध करे । यह घृत-ज्वर, दाह, भ्रम, गोप,
कन्धे, पसला, शिरकी पीडा, तृष्णा, वमन, अतीसार
इन सबको नष्ट करता है । यह घृत अठगुने काथमें
पकाना चाहिए ॥ ११६ ॥ १२० ॥

छागलाद्यघृत ।

छागमांसं तुलं गृह्य साधयेन्नलवणे-
ऽम्भसि । पादशेषेण तेनैव सर्पिः प्र-
स्थं विपाचयेत् ॥ १२१ ॥ ऋद्धिर्वृद्धि-
श्च मेदे द्वे जीवकर्षभकौ तथा । का-
कोलीक्षीरकाकोली कल्कैः पृथक्प-
लोन्मितैः ॥ १२२ ॥ सम्यक् सिद्धे
चावताय्ये शीते तस्मिन् प्रदापयेत् ।
शर्करायाः पलान्यष्टौ मधुनः कुडवं
क्षिपेत् ॥ १२३ ॥ पलं पलं लिहेत्प्रात-
र्यक्षमाणं हन्ति दुस्तरम् । क्षतं क्षयश्च
कासश्च पार्श्वशूलमरोचकम् ॥ १२४ ॥
स्वरक्षयसुरोरोगं श्वासं हन्यात् सु-
दुस्तरम् । बलमांसकरं घृष्यमग्निस-
न्दीपनं परम् । स्त्रीणाञ्चतुष्पदे श्रेष्ठं
पुंसां वै विहगे मृतम् ॥ १२५ ॥

४०० तोले वकरके मांसको लेकर १ द्रोण जलमें
पकावे जव चौथाई भाग जल शेष रहजाय तव घी

६४ तोले, ऋद्धि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, जीवक,
ऋपभक, काकोली और क्षीरकाकोली, प्रत्येकका
कल्क अलग २ चार चार तोले लेकर सबको एकत्र कर
उत्तमविधिसे घृतको सिद्ध करे । जव, घृत सिद्ध
होकर शीतल हो जाय तव मिश्री ३२ तोले और
गृहद १६ तोले मिलादेवे इसको प्रतिदिन प्रातःकाल
चार २ तोले प्रमाण खाय । यह छागलाद्यघृत-क्षतक्षय,
खाँसी, पार्श्वशूल, अरुचि, स्वरक्षय, उरोरोग और
दुस्तर श्वासको नष्ट करता है । बल और मांसको
बढानेवाला, वीर्यवर्द्धक और अग्निदीपक है । चौपाये
पशुओंमें स्त्रीजातिका मांस उत्तम होता है और
पक्षियोंमें पुरुषजातिका मांस उत्तम होता है ॥ १२१ ॥
॥ १२२ ॥ १२३ ॥ १२४ ॥ १२५ ॥

बलागर्भघृत ।

द्विपञ्चमूलस्य पचेत्कषाये प्रस्थद्वयं
मांसरसस्य चैकम् । कल्कं बलायाः
सुनियोज्य गर्भे सिद्धं पयः प्रस्थयुतं
घृतञ्च ॥ १२६ ॥ सर्वाभिघातोत्थित-
यक्ष्मशूलक्षतक्षयोत्कासहरं प्रदि-
ष्टम् ॥ १२७ ॥

दशमूलके दो प्रस्थ काथमें एक प्रस्थ मांसरस,
खिरैंटीका कल्क १ प्रस्थ, गौका दूध १ प्रस्थ और
गौका घी १ प्रस्थ मिलाकर विधिपूर्वक घृतको सिद्ध
करे । यह घृत-सर्वप्रकारके अभिघातसे उत्पन्न हुए
राजयक्ष्मा, शूल, क्षतक्षय और उग्र खाँसीको नष्ट
करता है ॥ १२६ ॥ १२७ ॥

चन्दनादितैल ।

चन्दनाम्बुनखं वाप्यं यष्टी शैल्यप-
न्नकम् । मञ्जिष्ठा सरलं दारु कटु-
फलं पूतिकेशरम् ॥ १२८ ॥ पत्रैले
च सुरामांसी कङ्कोलं वनितांबुदम् ।
हरिद्रे शारिवे तित्ता लवङ्गागुरुकु-
ङ्कुमम् ॥ १२९ ॥ त्वग्नेण नलिका चै-
भिस्तैलं मस्तुचतुर्गुणम् । लाक्षारस-
समं सिद्धं ग्रहघ्नं बलवर्णकृतम् ॥ १३० ॥
अप्रस्मारज्वरोन्मादकृत्यालक्ष्मीवि-

नाशनम् । आयुःपुष्टिकरञ्चैव वशी-
करणमुत्तमम् ॥ १३१ ॥

चन्दन, सुगन्धनाला, नख, कूठ, मुलैठी, भूरिछरीला, पन्नाख, मजीठ, धूपसरल, देवदारु, कायफल, जवादि, कस्तूरी, नागकेशर, तेजपत्र, इलायची, कपूरकचरी, कंकोल, फूलप्रियंगू, नागरसोथा, हल्दी, दारुहल्दी, दोनों प्रकारकी सारिवा, कुटकी, लौग, अगर, केशर, दालचीनी, रेणुका और नलिका इनके कल्क और काथमे एक प्रस्थ तिलका तेल, दर्हाका तोड ४ प्रस्थ, लाखका रस ४ प्रस्थ मिलाकर विधिपूर्वक तैलको सिद्ध करे । यह चन्दनादितैल त्रहदोपनाशक है, बल और वर्णको बढ़ानेवाला, तथा अपस्मार, ज्वर, उन्माद और अलक्ष्मीका नाश करनेवाला है । आयु और पुष्टिको बढ़ानेवाला और उत्तम वशीकरण योग है ॥ १२८ ॥ १२९ ॥ १३० ॥ १३१ ॥

शतपाकतैल ।

क्षीरे चतुर्गुणे तैलं प्रस्थं सिद्धं तिलो-
द्भवम् । शतशः पाचितं यष्टीपलक-
लकेन यत्नतः ॥ १३२ ॥ पाननस्यादि-
भिर्यक्ष्महृद्गुदामयपांडुजित । ऊर्ध्वज-
त्रुगुदोन्मादरक्तपित्तविसर्पणुत ॥ १३३ ॥

तिलका तेल १ प्रस्थ और दूध ४ प्रस्थ लेवे फिर चार तोले मुलैठीका कल्क डालकर सौवार तैलको पकावे इस तैलको पान, नन्यादिमे प्रयोग करना चाहिये । यह राजयक्ष्मा, हृदयरोग, गुदारोग, पाण्डुरोग, ऊर्ध्वजत्रुरोग, उन्माद, रक्तपित्त और विसर्परो-
गको नष्ट करता है ॥ १३२ ॥ १३३ ॥

ज्वरसन्तापदौर्बल्ये लाक्षातैलं प्रयो-
जयेत् । बालरोगाधिकारोक्तं पारम्प-
र्योपदेशतः ॥ १३४ ॥

बालरोगमें जो परंपराके उपदेशसे लाक्षादि तैल कहा है उसको ज्वर, सन्ताप और दुर्बलतामे प्रयोग करना चाहिए ॥ १३४ ॥

वासावलेह ।

वासकस्य रसप्रस्थं मानिका सितश-
र्करा । पिप्पलीद्विपलं सर्पिर्दत्त्वा मृ-
द्वमिना पचेत् ॥ १३५ ॥ लेहीभूते ततः

पश्चाच्छीते क्षौद्रपलाष्टकम् । दन्वा-
वतारयेद्वैद्यो मात्रया लेहमुत्तमम् १३६
निहन्ति राजयक्ष्माणं श्वासं कासञ्च
दारुणम् । पार्श्वशूलञ्च हृच्छूलं रक्तपि-
त्तं ज्वरं तथा ॥ १३७ ॥

अडूसेका स्वरस १ प्रस्थ, सफेद खॉड ६४ तोले, पीपल ८ तोले और घी ३२ तोले, सबको एक पात्रमे डालकर विधिपूर्वक मन्द २ अग्निसे पकावे जब पकते २ लेहके समान होजाय तब उतारलेवे, गीतल होनेपर ३२ तोले गहद मिलादेवे । अग्निका बलाबल विचार कर मात्राका निरूपण करे । यह वासावलेह—श्वास, राजयक्ष्मा, खॉसी, पार्श्वशूल, हृदयशूल, रक्तपित्त और ज्वरको दूर करता है ॥ १३५ ॥ १३६ ॥ १३७ ॥

सर्पिण्ड ।

त्वक्क्षीरीश्रावणीद्राक्षामृर्वर्षभकजी-
वकेः । वीरद्वीक्षीरकाकोलीबृहतीक-
पिकच्छुभिः ॥ खर्जूरविषमेदाभिः
क्षीरापिष्टैः पलोन्मितैः ॥ १३८ ॥ धा-
त्रीविदारीक्षुरसप्रस्थैः प्रस्थं घृतात्पचे-
त् । शर्करायास्तुलां शीते क्षौद्रार्धप्र-
स्थमेव च ॥ १३९ ॥ दत्त्वा सर्पिण्डान्कु-
र्यात्कासहिककाज्वरामयम् । यक्ष्मा-
णं तमकं श्वासं रक्तपित्तं हलीमकम् ।
शुक्रं निद्राक्षयं तृष्णां हन्युः कार्श्यं स-
कामलाम् ॥ १४० ॥

बंगलोचन, गोरखमुण्डी, दाख, मूर्वा, ऋषभक, जीवक, काकोली, क्षीरकाकोली, बडी कटेरी, कोचके बीज, खजूर, कमलकेशर और मेदा इन प्रत्येक औषधियोंको चार २ तोले लेकर दूधमे पसिलेवे । आमले, विदारीकन्द और ईखका रस प्रत्येक एक एक प्रस्थ एवं उत्तम गौका घी १ प्रस्थ लेवे, सबको मिलाकर अच्छे प्रकार मन्द मन्द अग्निसे पकावे । जब सिद्ध होजाय तब १०० पल सफेद खॉडे और गहद ३२ तोले मिला कर इसके मोदक बना लेवे । यह सर्पिण्ड अर्थात् मोदक—खॉसी, हिचकी, ज्वर, राजयक्ष्मा, तमक, श्वास, रक्तपित्त,

हलीमक, शुक्रक्षय, निद्राक्षय, तृषा, कृशता और कामलारोगको नष्ट करते है ॥ १३८—१४० ॥

च्यवनप्राशावलेह ।

विल्वाग्निमन्थश्योनाकृशाश्मर्यः पाटलावलाः । पर्ण्यश्चतस्रः पिप्पल्यः श्वदंष्ट्रा बृहतीद्वयम् ॥ १४१ ॥ शृङ्गी तामलकी द्राक्षा जीवन्ती पुष्करागुरु । अमृता चाभया वृद्धिर्जीवकर्षभकौ शटी ॥ १४२ ॥ मुस्तं पुनर्नवा मेदा सूक्ष्मलोत्पलचन्दने । विदारीवृषमूलानि काकोलीकाकनासिका ॥ १४३ ॥ एषां पलोमितान्भागाञ्छतान्यामलकस्य च । पञ्च दद्यात्तदैकत्वं जलद्रोणे विपाचयेत् ॥ १४४ ॥ ज्ञात्वा रसगतानेतानौषधानथ तद्रसान् । तच्चांमलकमुद्धृत्य निष्कुलं तैलसर्पिषोः ॥ १४५ ॥ पलद्वादशके भृष्टा दत्त्वा चार्धतुलां भिषक् । मत्स्यण्डिकायाः पूताया लेहवत्साधु साधयेत् ॥ १४६ ॥ प्रदापयेत्सिद्धमिते मधुनश्चात्र षट्पलम् । चतुष्पलं तुगाक्षीर्याः पिप्पल्या द्विपलं तथा ॥ १४७ ॥ पलमेकं निदध्याच्च त्वगैलापत्रकेशरात् । इत्ययं च्यवनप्राशः परमुक्तो रसायनः ॥ १४८ ॥ कासश्वासहरश्चैव विशेषेणोपदिश्यते । क्षीणक्षतानां वृद्धानां बालानां चाङ्गवर्द्धनम् ॥ १४९ ॥ स्वरक्षयसुरोरोगं हृद्रोगं वातशोणितम् । पिपासां मूत्रशुकस्थान् दोषांश्चैवापकर्षति ॥ १५० ॥ अस्य मात्रां प्रयुञ्जीत योऽपरुन्ध्यान्नभोजनम् । अस्य प्रयोगान्च्यवनः सुवृद्धोऽभूत् पुनर्युवा ॥ १५१ ॥ मेधां स्मृतिं कान्तिमनामयत्वमायुः प्रहर्षं बलमिन्द्रियाणाम् । स्त्रीषु प्रहर्षं परमग्निवृद्धिं वर्णप्रसादं पवनानुलोम्यम् ॥ १५२ ॥ रसायन-

स्यास्य नरः प्रयोगाल्लभेत जीर्णोऽपि कुटीप्रवेशात् । जराकृतं रूपमपास्य पूर्वं विभर्ति रूपं नवयौवनानाम् १५३ ॥

बेल, अरणी, अरल, कुम्भेर, पाढल, खुरैटी, गालपर्णी, पृश्निपर्णी, मुद्गपर्णी, मापपर्णी, पीपल, गोखुरु, कटेरी, बडी कटेरी, काकडाशिगी, मुईआमला, दाख, जीवन्ती, पोहकरमूल, अंगर, गिलोय, हरड, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, कचूर, नागरमोथा, पुर्ननवा, मेदा, छोटी इलायची, कमल, चन्दन, विदारीकन्द, अङ्गुसेकी जड, काकोली और काकनासा (कौआठोडी) ये प्रत्येक औषधि चार २ तोले और आमले ५०० लेवे । सबको एक द्रोणजलमे पकावे । जब चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतार लेवे । पश्चात् इस काथमेंसे आमलोको अलग निकालकर धामलोंकी गुठली निकाल डाले और काढ़ेको छानकर रखदेवे । फिर ४८ तोले घी और तेलमे उपरोक्त आमलोको भूनकर पीस लेवे, तदनन्तर पचास पल मिश्री पूर्वोक्त काथमे मिला देवे और यह आमले मिलाकर पकावे । जब लेहकी समान होकर शीतल होजाय तब २४ तोले गहद मिलादेवे । तथा बंगलोचन ४ पल, पीपल २ पल और दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, इन चारोका चूर्ण चार तोले मिला देवे । और सबको चलाकर एकमएक कर लेवे । यह च्यवन प्राश अवलेह उत्तम रसायन है । विशेष कर खॉसी और श्वासको नष्ट करता है । क्षीणक्षत, वृद्ध और बालकोके अंगोको बढ़ानेवाला है । तथा स्वरभंग, छातीके रोग, हृदयरोग, वातरक्त, प्यास, मूत्रदोष और शुक्रदोषको दूर करता है । इसकी इतनी मात्रा सेवन करे जिससे भूख कम न हो । इसके प्रसादसे च्यवनऋषि फिरसे युवा हुए थे । यह च्यवनप्राश अवलेह मेधा, स्मरणशक्ति, कांति, आरोग्यता, आयुकी वृद्धि, इन्द्रियोका बल, स्त्रीप्रसगमे अत्यन्त आनंद, जठराग्निकी वृद्धि और शरीरकी सुदरताको उत्पन्न करता है तथा वायुको अनुलोमन करता है । इसके प्रभावसे वृद्धमनुष्य भी तरुणताको प्राप्त होता है । मनुष्य इसको जराके पूर्वरूपमें सेवन करनेसे नवयौवनयुक्त हो जाता है ॥ १४१—१५३ ॥

केचिदिच्छति मत्स्यण्ड्याः स्थाने तु सितशर्करा । मृदुकल्कसमः पाको भृष्टधात्र्या प्रशस्यते ॥ १५४ ॥

चतुर्भागजले प्रायो द्रव्यं गतरसं भवेत् । अयन्तु च्यवनप्राशः पित्तोद्रेके प्रशस्यते । चत्वारः षड्यवाश्चास्य दीयन्ते प्रथमं किल ॥ १५५ ॥

कोई वैद्य इसमें मिश्रीके स्थानमें सफेद खाँड डालते है, मृदुकल्केके समान इसका पाक करना चाहिए । इसमें आमलोको भून लेना चाहिए । प्रायः चार भाग जलमें द्रव्यगत रस होता है । यह च्यवनप्राश अवलेह पित्तोद्रेकेमें हितकारी है । इसकी दृग्जौकी मात्रा है अर्थात् प्रथम इसको दृग्जौकी परिमाणसे सेवन करना चाहिए ॥ १५४ ॥ १५५ ॥

उच्चटाद्यमोदक ।

उच्चटेशुरसः क्षौद्रं तुगाक्षीर्याश्च बुद्धिमान् । प्रस्थं प्रस्थं पृथग्गृह्य शर्करार्धतुलान्तथा ॥ १५६ ॥ आत्मगुप्ताफलानाञ्च कुडवं मरिचस्य च । त्रिसुगान्धिकृतावापं मन्थानेन विमन्थयेत् ॥ १५७ ॥ पलिकान्मोदकान्कृत्वा स्थापयेद्भाजने वरे । एतद्द्विकालमेकं वा खादेदग्निबलं प्रति ॥ १५८ ॥ वटकान्नियताहारो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । स हन्याद्यक्षिमणः सद्य एकादशविधं क्षयम् ॥ १५९ ॥ स्वरवर्णबलौदार्य्यतुष्टिपुष्टिविवर्धनम् । आयुष्यं पौष्टिकं चाग्न्यं भूतोपहतचेतसाम् । व्याकुलीकृतदेहानां वृद्धानां क्षीणरेतसाम् ॥ १६० ॥ वाजीकरणमप्येवं वन्ध्यानां पुत्रदं परम् । धनुस्त्रीमद्यभाराध्वखिन्नानां बलवर्धनम् ॥ १६१ ॥ हत्प्लीहग्रहणीदोषमूत्रकृच्छ्रापतन्त्रकम् । अपस्मारविषोन्मादनाशनं तद्रसायनम् ॥ १६२ ॥

उच्चटा (तृणविशेष), ईखका रस, शहद और वशलोचन एक २ प्रस्थ, सफेद घूरा २०० तोले, कौँडके बीज १६ तोले, कालीमिरच १६ तोले और

दालचीनी, इलायची, तेजपातका चूर्ण १६ तोले, सबको एकत्र मिलाकर रईसे मथकर चार २ तोलेके मोटक बनाकर उत्तम वासनमें भर कर रस देवे । प्रतिदिन दोनो समय एक २ मोटक ग्याय । परन्तु अग्निका बलाबल विचारकर सेवन करे । इसमें नियत समयपर भोजन करे और जितेन्द्रिय होकर ब्रह्मचर्य्यको धारण करे । यह मोटक राजयक्ष्मारोगीके ग्यारह प्रकारके क्षयको हरते है । एत्र स्वर, वर्ण, बल और औदार्य्य तथा तुष्टि, पुष्टिको बढ़ाने हैं । आयुको बढ़ानेवाले, पुष्टिकारक, अग्निको दीपन करनेवाले एवं भूतवाधासे पीडित, वृद्धि और क्षीणवीर्य मनुष्यके अत्यन्त हितकारी हैं । उत्तम वाजीकरण, वन्ध्या स्त्रियोंको पुत्र देनेवाले, धनुष्य, स्त्री, मदिरा और भार ढोनेसे जो मनुष्य खँदखिन्न हो गये हैं उनके बलको बढ़ानेवाले है, हृदयरोग, प्लीहा, संग्रहणी, मूत्रकृच्छ्र, अपतन्त्रक, अपस्मार, विपविकार और उन्मादको दूर करते हैं । यह श्रेष्ठ रसायन है ॥ १५६—१६२ ॥

ज्वराणां शमनीयो यः पूर्वमुक्तः क्रियाविधिः । यक्षिमणां ज्वरदाहेषु ससर्पिष्कः प्रशस्यते ॥ १६३ ॥ नित्यं स्वदेवपूजाभक्तिभेषज्यदेवतागुरुषु । छागलमांसपयोऽश्वजीवति यक्ष्मी चिरं धृतिमान् ॥ १६४ ॥

ज्वररोगमें जो प्रथम क्रिया कही है वह सब राजयक्ष्मारोगमें और ज्वरकी दाहेमें घृतके साथ प्रयोग करनी चाहिये । राजयक्ष्मारोगमें नित्य इष्टदेवकी पूजा, औषधि, देवता और गुरुमें भक्ति, बकरेका मांस और बकरेके दूधका भोजन करे । इस प्रकार करनेसे राजयक्ष्मा रोगी बहुतकालतक जीता रहता है ॥ १६३ ॥ १६४ ॥

उपद्रवान्सत्त्वरवैकृतादीभ्रयेद्यथा क्षिप्रमवेक्ष्य शास्त्रम् । त्यजेत्कुर्वैद्यप्रतिपादितानि बुद्धेर्विरुद्धानि च भेषजानि ॥ १६५ ॥

यथाविधि शास्त्रको अवलोकन कर तत्काल विकारको करनेवाले ऐसे उपद्रवको शीघ्रही जीतना

चाहिए । और कुवैद्योंके द्वारा बनाई हुई बुद्धिके विरुद्ध औपधियोंको त्याग देना चाहिए ॥ १६५ ॥

इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां
यक्षमाधिकार संपूर्ण ।

अथ क्षतक्षयाधिकारः ।



धनुरायस्यतोत्यर्थं भारमुद्धहतो शु-
रुम् । युद्धयमानस्य बलिभिः पततो
विषमोच्चतः ॥ १ ॥ वृषं हर्यं वा धाव-
न्तं दम्यं चान्यं निगृह्यतः । शिला-
काष्ठाश्मनिर्घातान्क्षिपतो निघ्नतः
परान् ॥ २ ॥ अधीयानस्य वात्युच्चै-
र्दं वा व्रजतो द्रुतम् । महानदीं वा
तरतो हर्यैर्वा सह धावतः ॥ ३ ॥
सहसोत्पततो दूरं तूर्णं वापि प्रनृत्य-
तः । तथान्यैः कर्मभिः क्रूरैर्भृशम-
भ्याहतस्य वा ॥ ४ ॥ वीक्षते वक्ष-
सि व्याधिर्वलवान्समुदीर्यते ॥ ५ ॥
स्त्रीषु चातिप्रसक्तस्य रूक्षस्याल्पमि-
ताशनः । उरोविरुध्यतेऽत्यर्थं भिद्य-
तेऽथ विदह्यते ॥ ६ ॥ प्रपीड्यते ततः
पार्श्वे शुष्यत्यङ्गं प्रवेपते । क्रमाद्दर्णं
बलं वीर्यं रुचिरमिथ्य हीयते ॥ ७ ॥
ज्वरो दाहो मनोदैन्यं विड्भेदोऽग्नि-
वधावपि । दुष्टः श्यावः सुदुर्गन्धः पी-
तो विग्रथितो बहुः ॥ ८ ॥ कासमान-
स्य वाऽभीक्षणं कफः सान्द्रश्च जायते ।
सक्षतः क्षीयतेऽत्यर्थं तथा शुक्रौजसः
क्षयात् ॥ ९ ॥

अत्यन्त धनुष चढानेसे, बहुत भार उठानेसे,
बलवानके साथ युद्ध करनेसे, टेढ़ी अथवा ऊँची
जगहमे गिरनेसे, दौडतेहुए वैल, घोडे, हाथी, इत्यादिको
पकडनेसे, शिला, पत्थर, काष्ठ और अस्त्र आदिको
फेकनेसे, या चोट लगनेसे, दूसरोको मारनेसे, बहुत
ऊँचे स्वरसे बोलनेसे, भागकर दूर जानेसे, बडी-

गम्भीर नदीको तरनेसे, घोडेके साथ दौडनेसे, एक
साथ अकस्मात् उछलनेसे या कूदनेसे, शीघ्र नृत्यकर-
नेसे, बहुतसे क्रूर कर्म करनेसे, तथा अन्यान्य
मल्लयुद्धादि क्रूर कर्म करनेसे, किसीप्रकारकी
छातीमें भारी चोटके लगनेसे और छाती फट
जानेसे इत्यादि अनेक कारणोसे बलवान् उरःक्षत
रोग उत्पन्न होता है । अथवा अल्प परिमाणमे और
सूक्ष्म भोजन करनेवाले, स्त्रीमे अत्यन्त आसक्त
होनेवालेकी छातीमे अत्यन्त पीडा होती है तथा छेदन
और दाहके समान पीडा होती है । पसलीमे वेदना,
अंग सूखने और काँपने लगते है । क्रमसे वर्ण, बल,
वीर्य, रुचि और जठराग्नि क्षीण होने लगती है ।
ज्वर, दाह, चित्तमे दीनता, मलमेढ और अधिक
नाश होता है तब दुष्ट, काला, पीला, मिलाहुआ,
लाल, दुर्गन्धित, पीला, गांठयुक्त, बहुतसा और
गाढा ऐसा कफ ब्राम लेनेसे निकलता है । तो वह
उरःक्षतरोगी शुक्र और पराक्रमकं क्षीण होनेसे
अन्यन्त क्षीण होजाता है ॥ १-९ ॥

पूर्वरूप ।

अव्यक्तं लक्षणं तस्य पूर्वरूपमिति
स्मृतम् ॥ १० ॥

उसके अप्रकट लक्षणोंका पूर्वरूप कहते हैं ॥ १० ॥

असाध्य लक्षण ।

उरोरुक् शोणितच्छर्दिः कासो वै-
शोषिकः क्षते । क्षीणि सरक्तमूत्रत्वं
पार्श्वपृष्ठकटीग्रहः ॥ ११ ॥

छातीमें पीडा, रुधिरकी वमन, त्रिजेपकर खाँसी,
क्षीण होनेसे रुधिर मिले मूत्रका उतरना, पसली, पीठ
और कमरका रहजाना, जिसमें यह सब लक्षण हो
इसको असाध्य कहते हैं ॥ ११ ॥

क्रियाक्षयकरत्वाच्च क्षय इत्यभिधी-
यते । संशोषणाद्रसादीनां शोष इ-
त्युच्यते बुधैः ॥ १२ ॥

यह रोग पाचनादि क्रियाओंका क्षय करता है
इसकारण इसको क्षय कहते है । यह रस रक्तादि
धातुओंको शोषण करता है, इसकारण इसको शोष
कहते है ॥ १२ ॥

अन्यच्च ।

अल्पलिङ्गस्य दीप्ताग्नेः साध्यो बल-
वतो नवः । परिसम्बत्सरो याप्यः
सर्वलिङ्गं विवर्जयेत् ॥ १३ ॥

जिसमें थोड़े लक्षण हो, अग्निदीपन हो, रोगी बलवान्
हो और थोड़े ही कालसे उरःक्षत उत्पन्न हुआ हो वह
साध्य है । जिसको उत्पन्न हुए एक वर्ष बीतगया हो
उसको याप्य कहते हैं और जिसमें सम्पूर्ण लक्षण
मिलते हो उसको असाध्य जानना । असाध्यरोगको
वैद्य त्याग देवे ॥ १३ ॥

भुक्तद्वेषो ज्वरः श्वासः कासशोणि-
तदर्शनम् । स्वरभेदश्च जायन्ते षड्-
रूपे राजयक्ष्मणि ॥ १४ ॥

भोजनमें अरुचि, ज्वर, श्वास, खाँसी, रुधिरकी
वमन और स्वरभग ये छ लक्षण राजयक्ष्मामें होते
हैं ॥ १४ ॥

परं दिनसहस्रन्तु यदि जीवति मा-
नवः । सुभिषग्भिरुपक्रान्तस्तरुणः
शोषपीडितः ॥ १५ ॥

यदि क्षय रोगी तरुण हो और उन्तमवैद्यके द्वारा
उसकी चिकित्सा कीजाय तो १ हजारदिनतक जीता
रहता है ॥ १५ ॥

चिकित्सा ।

प्राणरोधात्क्षयाद्वापि कोष्ठात्पूतियु-
तात्तथा । क्षतोरस्यन्नपाकेन निः-
श्वासो वाऽतिपूतिकः ॥ १६ ॥ उरो
मत्वा क्षतं लाक्षां पयसा मधुसंयुता-
म् । सद्य एव पिबेज्जीर्णे पयोऽद्याच्च
सशर्करम् ॥ पार्श्ववस्तिरुजिश्राम्ल-
पित्ताग्निस्तां सुरायुताम् ॥ १७ ॥ भि-
न्नविट्कः समुस्ताभिर्विषापाठा स-
वत्सका । बलाश्वगन्धा श्रीपर्णी बहु-
पत्री पुनर्नवा ॥ १८ ॥ पयसा नित्य-
मभ्यस्ताः शमयन्ति क्षतक्षयम् ॥ १९ ॥

प्राणवायुको रोकनेसे अथवा बहुत शीघ्रगामी
श्वासको रोकनेसे, धातुओंके क्षयहोनेसे, दुर्गन्धित
कोठेके होनेसे छातीमें वायु होजाता है । तब अन्नके
पाकसे अथवा अत्यन्त दुर्गन्धसे श्वास अत्यन्त दुर्ग-
न्धित निकलता है । ऐसे छातीमें वायुको जानकर
लाखको दूध और शहदके साथ पीवे और जब वह
जीर्ण होजाय तब तत्काल मिश्री मिलाकर दूध पीवा
पार्श्वशूल, वास्तिगूठ और अम्लपित्त तथा मंदाग्नि-
वाल मनुष्योंको मदिराके साथ पान करावे । मलभेद
अर्थात् अतीमारवाले उरःक्षयरोगीको नागरमोथा,
अतीम, पाठ, इन्द्रजाँ, रिचैँटी, अमगन्ध, अरणी,
शनावर और पुनर्नवा इनको दूधके साथ नित्य सेवन
करावे इससे क्षतक्षयरोग शमन होता है ॥ १६ ॥ १७
॥ १८ ॥ १९ ॥

शर्करायवगोधूमं जीविकर्षभकौ मधु ।
शृतं क्षीरानुपानञ्च लिह्यात्क्षीणः क्ष-
तः कृशः ॥ २० ॥

सफेद खाँड, जौ, गेहूँ, जीवक, ऋषभक और
शहद इन सबको आँटे हुए दूधके साथ क्षतक्षीणसे
कृश हुआ मनुष्य पीवे ॥ २० ॥

इक्ष्वालिका विसमन्थिः पद्मकेशरच-
न्दनैः । शृतं पयो मधुयुतं संधानार्थं
पिबेत्क्षती ॥ २१ ॥

इक्ष्वालिका (तृणाविशेष), कमलकी नाल, कमलके-
शर और चन्दन इनको दूधमें आँटाकर क्षतको भर-
नेके लिये क्षतक्षयरोगी पान करे ॥ २१ ॥

रक्तष्टीवी पिबेत्सिद्धं लाक्षारसपयो-
धृतैः । वर्षाभूशर्करामुस्तशालितण्डु-
लजं रजः ॥ २२ ॥

जो रुधिरकी वमन हो तो पुनर्नवा, मिश्री, नागर-
मोथा और शालिचावलोका चूर्ण इनको दूधमें आँटा
कर लाखका रस और घी डालकर पानकरे ॥ २२ ॥

लाक्षाचूर्णन्तु सुकृतं क्षौद्राज्येन स-
मन्वितम् । सकृल्लीढं शमयति
शोषोद्भूतां वर्मि तथा ॥ २३ ॥

लाखके चूर्णको शहद और घीके साथ मिलाकर सेवन करनेसे एकवारमे ही शोषसे उत्पन्न हुई वमन दूर होती है ॥ २३ ॥

एलादिगुटिका ।

एला पत्रं त्वचो द्राक्षा पिप्पलयर्धं पलं तथा । सितामधुकवर्जूरमृद्धीकाश्च पलोन्मिताः ॥ २४ ॥ संचूर्ण्य मधुना युक्ता गुटिकाः संप्रकल्पयेत् । अक्षमात्रां ततश्चैकां भक्षयेच्च दिने दिने २५ ॥ कासं श्वासं ज्वरं हिकां छर्दिं मूर्च्छां मदं भ्रमम् । रक्तनिष्ठिवनं तृष्णां पार्श्वशूलमरोचकम् ॥ २६ ॥ शोथ-प्लीहाढ्यवातांश्च स्वरभेदं क्षतक्षयम् । गुटिका तर्पणी वृष्या रक्तपित्तश्च नाशयेत् ॥ २७ ॥

इलायची, तेजपात, दालचीनी, दाख और पीपल ये प्रत्येक दो २ तोले, मिश्री, मुलैठी, खजूर और किसमिस प्रत्येक चार २ तोले लेवे । सबका एकत्र चूर्ण करके शहदमें मिलाकर एक एक तोलेकी गोलीयां बनालेवे । प्रतिदिन एकगोली खाय यह गोली-खाँसी, श्वास, ज्वर, हिचक्री, वमन, मूर्च्छा, मद, भ्रम, रुधिरका थूकना, तपा, पार्श्वशूल, अरुचि, सूजन, प्लीहा, आढ्यवात, स्वरभेद, क्षतक्षय और रक्तपित्त को नष्ट करती है । यह गोली-वृषिकारक और वृष्य है ॥ २४—२७ ॥

यष्ट्याह्वृत ।

यष्ट्याह्वनागबलयोः काथे क्षीरसमे घृतम् । पयसा पिप्पलीमांसी कल्कैः सिद्धं क्षये हितम् ॥ २८ ॥

मुलैठी और गंगेरनके काथमे समान भाग दूध, पीपल और बालछडका कल्क डालकर घृतको पकावे यह घृत—क्षयरोगमे अत्यन्त हितकारी है ॥ २८ ॥

बलादिघृत ।

घृतं बलानागबलार्जुनांबुसिद्धं सयष्टीमधुकल्कपादम् । हृद्रोगशूलक्षतरक्तपित्तं कासानिलोत्थाञ्छमयत्युदीर्णान् ॥ २९ ॥

खिरैटी, गंगेरन और अर्जुन इनके काथमे मुलैठीका कल्क डालकर घृतको पकावे । यह घृत-हृदयरोग, शूल, क्षत, रक्तपित्त और अत्यन्त बढ़ी हुई वातकी खाँसीको दूर करता है ॥ २९ ॥

श्वदंष्ट्रादिघृत ।

श्वदंष्ट्रोशीरमञ्जिष्ठा बलाकाश्मर्यक-तृणम् । दर्भमूलं पृष्टपर्णी बलासर्षभ-का स्थिरा ॥ ३० ॥ पालिकान्साध-येत्तेषां रसे क्षीरचतुर्गुणे । कल्कैः स्व-गुप्तदर्षाभूमेदाजीवन्तिजीवकैः ॥ ३१ ॥ शतावर्ग्यादिमृद्धीका शर्कराश्राव-णीवृषैः । प्रस्थं सिद्धं घृताद्वातपित्त-हृद्रोगशुल्मनुत ॥ ३२ ॥ मूत्रकृच्छ्र-मेहार्शःकासशोषक्षयापहम् । धनुः-स्त्रीमध्यभाराध्वखित्रानां बलमांस-दम् ॥ ३३ ॥

गोखरू, खस, मजीठ, खिरैटी, कुम्भेर, कत्तुग, डामकी जड़, पृश्निपर्णी, कधी, ऋषभक और गालि-पर्णी, प्रत्येक चार २ तोले लेकर काथ बनावे । इस काथमे चौगुना दूध, कौचके बीज, पुनर्नवा, मेवा, जीवन्ती, जीवक, गतावरी, दाख, मिश्री, गोरख-मुण्डी और अडूसा इनका कल्क डालकर, एक प्रस्थ घृतको सिद्ध करे । यह घृत—वात, पित्त, हृदयरोग, गुल्म, मूत्रकृच्छ्र, प्रमेह, बवासीर, खाँसी, शोष और क्षयको नष्ट करता है तथा धनुष्य, स्त्री, मार्ग और बोजा ढाँसेस जो खेदखिन्न होगये है उनके बल और मांसको बढ़ाता है ॥ ३०—३३ ॥

द्राक्षादिघृत ।

द्राक्षार्याः सम्मितं प्रस्थं मधुकस्य पलाष्टकम् । पचेत्तोयाढके शुद्धे पाद-शेषेण तेन तु ॥ ३४ ॥ पालिके मधु-कद्राक्षे पिष्टे कृष्णापलद्रयम् । प्रदा-य सर्पिषः प्रस्थं पचेत्क्षीरे चतुर्गुणे ३५ ॥ सिद्धे शीते पलान्यष्टौ शर्करायाः प्रदा-पयेत् । एतद्द्राक्षाघृतं सिद्धं क्षीणक्ष-तसुखावहम् ॥ ३६ ॥ वातपित्तज्वरश्वा-

सविस्फोटकहलीमकान् । प्रदरं रक्त-
पित्तञ्च हन्यान्मांसबलप्रदम् ॥ ३७ ॥

दाख १ प्रस्थ और मुलैठी ८ पल इनको एक आढक जलमे पकावे । जब चौथाईभाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे । फिर इसमे मुलैठी और दाखका चूर्ण चार चार तोले, पीपलका चूर्ण ८ तोले, घी १ प्रस्थ और दूध चौगुना डालकर उत्तम-विधिसे घृतको पकावे । जब घी मिद्ध हो जाय तब शीतल होनेपर मिश्री ८ पल मिलादेवे । यह द्राक्षा-दिघृत-क्षीणक्षत मनुष्योंको सुखकारी है । तथा वात-पित्तज्वर, उवास, विस्फोटक, हलीमक, प्रदर और रक्तपित्तको नष्ट करता है, बल और मांसको उत्पन्न करता है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

अमृतप्राश ।

क्षीरे धात्रीविदारीक्षुक्षीरीणाञ्च तथा
रसे । पचेत्समे घृतप्रस्थं मधुकैरिक्षु-
कान्वितैः ॥ ३८ ॥ द्राक्षाद्विचन्दनो-
शीरशर्करोत्पलपद्मकैः । मधूककुसु-
मानन्ताकाशमरीतृणसंज्ञकैः ॥ ३९ ॥
प्रस्थार्धं मधुनः शीते शर्करार्धतुलां
तथा । पलार्धकांश्च संचूर्ण्य त्वगैला-
पत्रकेसरान् ॥ ४० ॥ विनीय तस्य सालि-
ह्यान्मात्रानित्यं सुयन्त्रितः ॥ ४१ ॥
अमृतप्राशमित्येतदश्विभ्यां परिकी-
र्तितम् । क्षीरमांसाशिनां हन्ति रक्त-
पित्तं क्षतक्षयम् ॥ ४२ ॥ तृण्णारुचि-
श्वासकासच्छर्दिमूर्च्छाप्रमर्दनम् । मूत्र-
कृच्छ्रज्वरघ्नञ्च बलं स्त्रीरतिवर्द्धनम् ४३ ॥

दूध, आमले, विदारीकंद, ईख आर क्षीरवृक्ष इनका रस समान भाग और घी १ प्रस्थ लेवे, मुलैठी, ईख, दाख, चन्दन, लालचन्दन, खस, मिश्री, कमल, पद्माख, महुवेके फूल, अनन्तमूल, कुम्भेर और तृण इन सबका चूर्ण डालकर पकावे । जब लेहके समान होजाय तब शीतल होनेपर ३२ तोले शहद और ५० पल खाड तथा दालचीनी, इलायची, तेजपात और नागकेसर इनका चूर्ण दो २ तोले मिलादेवे । फिर अभिका बलावल विचारकर मात्राका निरूपण करे ।

यह अमृतप्राश अवलेह, अश्विनीकुमारोने निर्माण किया है। इसको सेवन करनेवाला दूध और मांसरसका भोजन करे । यह अमृतप्राश अवलेह-रक्तपित्त, क्षत, क्षय, तृपा, अरुचि, उवास, खॉसी, वमन, मूर्च्छा, मूत्रकृच्छ और ज्वरको दूर करता है । बल और स्त्रियोमे रतिको बढ़ाता है ॥ ३८—४३ ॥

सर्पिगुड ।

बला विदारी हस्वा च पञ्चमूली पु-
नर्नवा । पञ्चानां क्षीरवृक्षाणां शुङ्गा
मुष्ट्यंशिकाः पृथक् ॥ ४४ ॥ वि-
पाच्य सालिलद्रोणे पूते पादाव-
शेषिते । पादांशे छागमोक्षीरे विदा-
र्याः स्वरसे पृथक् ॥ ४५ ॥ जीव-
नीयैः पचेत्कल्कैरक्षमात्रैर्वृताढकम् ।
सितापलानि पूते च द्वात्रिंशदापये-
च्छिते ॥ ४६ ॥ गोधूमं पिप्पली
भाङ्गीचूर्णं शृङ्गाटकरथ च । समाक्षि-
कं कौडविकं तत्सर्वं खजमूर्च्छितम् ॥
४७ ॥ स्त्यानं सर्पिर्गुडान्कृत्वा भू-
र्जपत्रेण वेष्टयेत् । ताञ्जग्ध्वा पलिका-
न्क्षीरं मद्यं चानुपिवेत्कफे ॥ ४८ ॥
शोषे कासे क्षये क्षीणे श्रमस्त्रीभार-
कर्षिते । रक्तनिष्ठीवने तापे पीनसे
चोरासि क्षते ॥ ४९ ॥ शस्ताः पार्श्वशि-
रःशूले भेदे च स्वरवर्णयोः ॥ ५० ॥

खिरैटी, विदारीकन्द, लघुपञ्चमूल, पुनर्नवा, बड, गूलर, पीपल, पारिसपीपल और पिलखन इनके अंकुर अथवा कोपल ये प्रत्येक चार २ तोले लेकर एकद्रोण जलमे पकावे । जब पकते २ चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे । फिर उसमे चौथाई भाग वकरीका दूध और विदारीकन्दका स्वरस तथा जीवनीयगणकी समस्त औषधिये एक २ तोला लेकर कल्क बनाकर मिलादेवे और एक आढक परिमाण घी डालकर पकावे । शीतल होनेपर बख्खमे छान लेवे फिर ३२ पल मिश्री, गेहूँ, पीपल, भारंगी और सिघाडेका चूर्ण तथा शहद ये प्रत्येक

सोलह २ तोले मिलाकर सूत्र रईसे मथकर चार २ तोलेके लड्डू बनाकर भोजपत्रमे लपेटकर रख देवे । प्रतिदिन एक मोदक खाय और ऊपरसे दूध अथवा मदिरा पीवे । यह मोदक—कफ, शोष, खाँसी, क्षयक्षीर्ण, परिश्रम, स्त्रीप्रसंग और भारढोनेसे थकना, रुधिरका थूकना, ताप, पीनस, उरः-शूल, पार्श्वशूल, शिरःशूल, स्वरभेद और विवर्णता इन सब रोगोमे अत्यन्त हितकारी है ॥ ४४ --५० ॥

अत्र षोडशगुणे जले निःकाथ्य च-
तुर्भागावशिष्टकाथे द्विगुणं क्षीरं वि-
दार्याजरसयोः प्रत्येकं द्विपञ्चाशत्प-
लैः पाकः ।

यहां काथकी औषधिये सोलहगुने जलमें पकावे जब चौथाई भाग काथ शेष रहजाय तब उतार कर छानलेवे । फिर उसमे धकरीका दूध ५२ पल और विदारीकन्दका स्वरस ५२ पल डालकर पाक करना चाहिए ।

सर्पिमोदक ।

गोक्षीरार्द्राढकं सर्पिः प्रस्थमिक्षुरसा-
ढकम् । रसं विदार्याः कुडवं रसात्प्र-
स्थञ्च तैत्तिरात् ॥ ५१ ॥ दद्यात्सि-
ध्याति तस्मिंस्तु पिष्टानिक्षुरसैरिमा-
न् । मधुकपुष्पकुडवं पिप्पलीकुडवं
तथा ॥ ५२ ॥ कुडवार्धं तु गोक्षीर्याः
खर्जुराणि च विंशतिः ॥ पृथग्विभीत-
कान्पञ्च पिप्पल्यश्च चतुर्थकान् ॥ ५३ ॥
त्रिंशत्पलानि खण्डाद्वा मधुकात्कर्ष-
मेव च ॥ तथार्धपलिकान्यत्र जीवनी-
यानि दापयेत् ॥ ५४ ॥ सिद्धेऽस्मि-
न्कुडवं क्षौद्राच्छीते प्रक्षिप्य मोद-
कान् । कारयेन्मरिचाजाजीपलचूर्णा-
वचूर्णितान् ॥ ५५ ॥ वातासृक्पि-
त्तरोगेषु क्षतकासक्षयेषु च । शुण्य-
तां क्षीणशुक्राणां रक्ते चोरसि सं-
स्थिते ॥ ५६ ॥ क्षयिदुर्बलभीरूणां
पुष्टिवर्णबलार्थिनाम् । योनिदोषक्ष-

तस्त्रावदुर्बलानाञ्च योषिताम् ॥ ५७ ॥
गर्भार्थिनीनां गर्भञ्च स्रवेद्यासां त्रि-
येत च । धन्या बल्या हितास्तासां
शुक्रशोणितवर्धनाः ॥ ५८ ॥

गौका दूध अर्धआढक, घी एकप्रस्थ, ईखका रस १ आढक, विदारीकन्दका स्वरस एक कुडव और तीतरका रस एकप्रस्थ सबको मिलाकर यथाविधिसे पकावे । जब सिद्ध होजाय तब महुएके फूल १६ तोले और पीपलका चूर्ण १६ तोले, ईखके रसमे पीसकर मिला देवे । तथा बंगलोचन ८ तोले, खजूर २०, बहेडे ५, और पीपल ४, खांड ३० पल, मुलैठी एक तोला और जीवनीयगणकी औषधि दो २ तोले, यह सब द्रव्य तथा शीतल होनेपर १६ तोले शहद मिला देवे फिर कालीभिरच और जीरेका चूर्ण चार तोले मिला कर लड्डू बनालेवे । यह मोदक-वानरक्त, पित्तरोग, क्षत, खाँसी, क्षय, शुष्कता, क्षीणशुक्र, उरःक्षत, क्षय, दुर्बल और भयभीत ऐसे मनुष्योको अत्यन्त हितकारी है । पुष्टि, वर्ण और बलको बढ़ानेवाले है । योनिदोष, क्षतस्त्राव, दुर्बल स्त्री, जिनको गर्भधारणकी इच्छा हो अथवा जिनका गर्भस्त्राव होता हो या जिनके मरी हुई सन्तान उत्पन्न होती है, उनके लिये यह अत्यन्त हितकारी है । धन्य, बलकारक, तथा शुक्र और रुधिरको बढ़ानेवाले है ॥ ५१—५८ ॥

यद्यच्च तर्पणं शीतमविदाहि हितं
लघु । अन्नपानं निषेव्यन्तु क्षतक्षीणि
सुखार्थिभिः ॥ ५९ ॥

जो जो पदार्थ तृप्तिकारक, शीतल, दाहकारक नहीं, हितकारक और हलके है उन सब अन्नपानोको क्षतक्षीणमे सुखके लिये सेवन करे ॥ ५९ ॥

शोकं स्त्रियः क्रोधमसूयताञ्च यजे-
दुदारान्विषयान् भजेत्तु । तथा द्वि-
जातींस्त्रिदशान्गुरुंश्च वाचश्च पुण्याः
शृणुयाद्द्विजेभ्यः ॥ ६० ॥

क्षतक्षयमे शोक, स्त्री, क्रोध और निन्दाको त्याग देवे । तथा उदारविषयोको भजे, एवं ब्राह्मण, देवता, गुरु और ब्राह्मणोसे शास्त्रादिके पुण्य वचन सुने ६०

इति बंगसेने भाषाटीकायां क्षतक्षया-

धिकार संपूर्ण ।

अथ कासरोगनिदान ।



धूमोपघाताद्रजसस्तथैव व्यायामरू-
क्षात्रनिषेवणाच्च । विमार्गगत्वादिपि
भोजनस्य वेगावरोधात्क्षवथोस्तथैव
॥१॥ प्राणो ह्युदानानुगतः प्रदुष्टः सं-
भिन्नकांस्यस्वनतुल्यघोषः । निरेति
वक्रात्सहसा सदोषो मनीषिभिः
कास इति प्रदिष्टः ॥ २ ॥

मुख और नासिकादिमें धूआं लगनेसे या धूलके पड़नेसे, अत्यन्त कसरत आदि परिश्रम करनेसे, रुखे अन्नको सेवन करनेसे, भोजन करते समय भोजनके नासिकादि विमार्गमें चले जानेसे, मलमूत्रादिकके वेगोको रोकनेसे और छीकको रोकनेसे दूषित हुई प्राणवायु उदानवायुसे मिलकर अकस्मात् फूटे कांसके समान शब्द करती हुई मुखके बाहर कफ या पित्त को साथ लेकर निकलती है उसको वैद्यलोग कासरोग अर्थात् खाँसी कहते हैं ॥ १ ॥ २ ॥

पञ्चकासाः स्मृता वातपित्तश्लेष्मक्ष-
तक्षयैः । क्षवायोपेक्षिताः सर्वे बलि-
नश्चोत्तरोत्तरम् ॥ ३ ॥

वात, पित्त, कफ, क्षत और क्षय इनभेदोंसे खाँसी पांच प्रकारकी है । इनकी चिकित्सा नहीं करनेसे राजयक्ष्मारोग उत्पन्न होजाता है । ये सब उत्तरोत्तर बलवान् अर्थात् वातसे पित्त, पित्तसे कफ, कफसे क्षत और क्षतसे क्षयकी खाँसी बलवान् है ॥ ३ ॥

पूर्वरूप ।

पूर्वरूपं भवेत्तेषां शूकपूर्णगलास्यता ।
कण्ठे कण्डूश्च भोज्यानामवरोधश्च
जायते ॥ ४ ॥

गले और मुखमें शूकके समान काँटे जमजायें, कठमे खुजलीसी चले और भोजन करते समय कठिनतासे प्रांस निगला जाय ये कासरोगके पूर्व लक्षण हैं ॥ ४ ॥

वातजकासके लक्षण ।

हृच्छङ्खमूर्द्धोदरपार्श्वशूली क्षामान-
नः क्षीणबलः स्वरौजाः । प्रसक्तवे-
गस्तु समरिणेन भिन्नरवरः कासति
शुष्कमेव ॥ ५ ॥

हृदय, कनपटी, शिर, उदर और पसलियोंमें शूलकी पीडा, मुखका उतरजाना, बल, स्वर और ओजका क्षीण होजाना, वारवार तेजोंके साथ खाँसीका उठना, स्वरका वैठजाना और सूखी खाँसीका उठना ये वातज खाँसीके लक्षण हैं ॥ ५ ॥

चिकित्सा ।

रूक्षस्यानिलजं कासमादौ स्नेहैरु-
पाचरेत् । सर्पिर्भिर्बस्तिभिः पेया क्षीर-
यूपरसादिभिः ॥ ६ ॥

जा रुखे मनुष्यके वातकी खाँसी हो तो प्रथम स्नेह पानादि उपचार करने चाहिए । तथा घृतपान, वस्तिकर्म, पेया, दूध, यूप, मांस और रसादि प्रयोग करने चाहिए ॥ ६ ॥

वास्तुको वायसीशाकं मूलकं सुनि-
पण्णकम् । स्नेहात्तैलादयो भक्ष्याः
क्षीरेशुरसगोडकाः ॥ ७ ॥ दध्यार-
नालाम्लफलं प्रसन्नापानमेव च ।
शस्यते वातकासेषु स्वाद्मल्लवणा-
नि च ॥ ८ ॥ ग्राम्यानूपोदकैः शा-
लियवगोधूमषष्टिकान् । रसैर्मासात्म-
गुप्तानां यूपैर्वा भोजयेद्वितान् ॥ ९ ॥
दशमूलीशृता कासश्वासहिकारुजा-
पहा । यवागूदीपनी वृष्या वातरोग-
विनाशिनी ॥ १० ॥

वथुआ, मकोय, मूली और गिरियारी इनका शाक, तैलादि स्नेह, दूध, ईखका रस, गुडके बने पदार्थ, दही, कांजी, खट्टेफल, प्रसन्ना नामक मदिरा, स्वादिष्ठ, अम्ल और नमकीन ये सब पदार्थ वातकी खाँसीमें हितकारी है । एव ग्राम्य, अनूप और जलचर जीवोंका मांसरस और

शालिचावल, जौ, गेहूँ, साठीधान और कौलके बीजका रस अथवा गृप सेवन कराना हितकारी है । दशमूलके काथमे सिद्ध कीहुई यवागू—खाँसी, श्वास और हिचकीको दूर करती है । यह दीपन, वृष्य और वातरोग नाशक है ॥ ७--१० ॥

पञ्चमूलीकृतः काथः पिप्पलीचूर्णसंयुतः । रसान्नमश्नतो नित्यं वातकासमुदस्यति ॥ ११ ॥

पंचमूलके काथमें पीपलका चूर्ण डालकर पान करे और नित्यप्रति मांसरसके साथ भोजन करे तो वातकी खाँसी दूर होती है ॥ ११ ॥

रसं कर्कटकानां वा घृतभृष्टं सनागरम । वातकासप्रशमनं शृङ्गीमत्स्यस्य वा पुनः ॥ १२ ॥

ककड़ेके साँसके रसको घृतमे भूनकर सोंठ डालकर अथवा शृंगी मछलीके रसको घृतमे भूनकर सोंठ डालकर सेवन करे तो वातकी खाँसी दूर होती है ॥ १२ ॥

शटीशृङ्गीकणाभाङ्गीगुडवारिद्रवासकैः । सतैलैर्वातकासघ्नैर्लेहोऽयमपराजितः ॥ १३ ॥

कचूर, काकडाशिगी, पीपल, भारंगी, गुड, नागरमोथा और अड्डसा इनका अवलेह बनाकर तेलमें मिलाकर सेवन करनेसे वातकी खाँसा दूर होती है यह अपराजितालेह है ॥ १३ ॥

भाङ्गीद्राक्षाशटीशृङ्गीपिप्पलीविश्वभेषजैः । गुडतेलयुतो लेहो हितो मारुतकासिनाम् ॥ १४ ॥

भारंगी, दाख, कचूर, काकडाशिगी, पीपल और सोंठ, इनका चूर्ण करके उसका गुड, तेलके द्वारा अवलेह बनाकर सेवन करना वातकी खाँसीवालोंको हितकारी है ॥ १४ ॥

चूर्णिता विश्वदुःस्पर्शा शृङ्गी द्राक्षाशटी सिता । लीढा तैलेन वातोत्थं कासं जयति दुस्तरम् ॥ १५ ॥

सोंठ, धमासा, काकडाशिगी, दाख, कचूर और मिश्री इनके चूर्णको तेलमे मिलाकर चाटनेसे वातकी खाँसी दूर होती है ॥ १५ ॥

दशमूलादिघृत ।

दशमूलीकषायेण भाङ्गीकल्कैर्घृतं पचेत् । दक्षतित्तिरिनिर्यूहे तत्परं वातकासनुत् ॥ १६ ॥

दशमूलके काथ, भारंगीके कल्क, मुरगे और तीतरके निर्यूहमें घोको सिद्ध करे । यह घृत-वातकी खाँसीको दूर करता है ॥ १६ ॥

भाङ्गीर्वादिघृत ।

भाङ्गीकल्कैर्घृतश्चाथ पचेद्दधि चतुर्गुणे । भाङ्गीरसं द्विगुणितं वातकासहरं परम् ॥ १७ ॥

भारंगीके एक भाग कल्कसे चौगुने दही और भारंगीके दुगुने रसमे एकभाग घृतको मिलाकर यथाविधिसे सिद्ध करे । यह घृत-वातकी खाँसीको दूर करता है ॥ १७ ॥

रास्नादिघृत ।

द्रोणेऽपां साधयेद्रास्नां दशमूली शतावरीम् । पलिकां मानिकांशांस्त्रीन्कुलित्थान्वदरान् यवान् ॥ १८ ॥ तुलाद्धै राजमाषस्य पादशेषेण तेन तु । घृताढकं समक्षीरं जीवनीयैः पलोन्मितैः ॥ १९ ॥ सिद्धं तद्दशभिः कल्कैः नस्यपानानुवासनैः । समीक्ष्य वातरोगेषु यथावस्थं प्रयोजयेत् ॥ २० ॥ पञ्चकासाञ्छिरःकम्पं शूलं वंक्षणयोनिजम् । सर्वाङ्गैकाङ्गरोगांश्च सङ्गीहोर्ध्वानिलं जयेत् २१ ॥

रायसन, दशमूल और शतावर, प्रत्येक औषधि चार चार तोले, कुलथी, वेर और जौ ये प्रत्येक सोलह सोलह पल और बडी जातके उडद ५० पल लेवे सबको एकत्र कर एक द्रोण जलमे पकावे । जब पकते पकते चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतार कर छान लेवे । फिर इसमें घी और दूध एक एक आढक परिमाण तथा जीवनीय गणकी औषधियोंका कल्क चार चार तोले डालकर घृतको सिद्ध करे । इस घृतको वातरोगोमे विचार पूर्वक

अवस्थानुसार नस्य, पान और अनुवासन वन्ति आदिमे प्रयोग करे । यह रास्नादिघृत-पांचोंप्रकारकी खाँसी, शिरःकम्प, वंक्षणशूल, योनिशूल, सर्वांगशूल, एकांगरोग, प्लीहा और ऊर्ध्वगत वातकों नष्ट करता है ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥

जीवकर्षभकौ मेदे काकोल्यो मधुकं सह । जीवन्ती जीवनीयोऽयं मधुरो जीवनो गणः ॥ २२ ॥ शूर्पपर्णी विना केचिदष्टवर्गभिमं विदुः । ऋद्धिवृद्धियुतं चान्ये जीवन्तीमधुकं विना ॥ २३ ॥

जीवक, ऋपभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, मुलैठी और जीवन्ती इन सब औषधियोंके समूहको मधुरजीवनीयगण कहते हैं । इसमें कोई वैद्य शूर्पपर्णीके दिना इसको अष्टवर्ग कहते हैं और कोई वैद्य ऋद्धिवृद्धि सहित और जीवन्ती तथा मुलैठी रहितको अष्टवर्ग कहते हैं ॥ २२ ॥ २३ ॥

चित्रकाद्यवलेह ।

चित्रकं पिप्पलीमूलं व्योषं मुस्तं दु-
रालभासम् । शटी पुष्करमूलञ्च श्रेय-
सी सुरसा वचा ॥ २४ ॥ भार्ङ्गी
छिन्नरुहा रास्ना कर्कटारुहा च
कार्षिकान् । कल्कात्रिदग्धिकार्धस्य
कषाये पलविंशतिः ॥ २५ ॥ मत्स्य-
ण्डिकाया दत्त्वा तु सर्पिषः कुडवं प-
चेत् । सिद्धशति पृथक् क्षौद्रपिप्पली
कुडवान्वितम् ॥ २६ ॥ चतुष्पलं तु
गोक्षीर्याश्चूर्णितं तत्र दापयेत् । ले-
हयेत्कासहृद्रोगश्वासगुल्मनिवारण-
म् ॥ २७ ॥

चीता, पीपलामूल, नागरमोथा त्रिकुटा, धमासा, कचूर, पोहकरमूल, गजपीपल, तुलसी, वच, भारंगी, गिलोय, रायसन और काकडासिगी, ये प्रत्येक औषधि एक एक तोला लेकर कलक बना ले फिर उसको कटेरीके ५० पल काथमे मिलाकर तथा मिश्री ८० तोले और वी १६ तोले डालकर पकावे । जब पककर तैयार हांजाय तो-शीतल होनेपर शहद

१६ तोले, पीपल १६ तोले और वंजलोचनका चूर्ण १६ तोले मिला देवे, यह ऋष्टकार्यादि अवलेह-खाँसी, हृदयरोग, श्वास और गुल्मरोगको नष्ट करता है ॥ २४—२७ ॥

पित्तजकासनिदान- पूर्वकचिकित्सा ।

उरोविदाहज्वरवक्रशोषैरभ्यर्दितस्ति-
क्तमुखस्तृपात्तः । पित्तेन पीतानि व-
भेत्कट्टूनि कासेत्सपाण्डुः परिदह्यमा-
नः ॥ २८ ॥

पित्तकी खाँसीमे-छातोमे दाह (जलन), ज्वर, मुखका सुख जाना, मुखका कटवा होना, तृपाकी पीडा, पीले और कटवे कफको खाँसते समय थूकना, रोगीका शरीर पीलापन और दाह होती है ॥ २८ ॥

काकोली बृहती मेदा युग्मेः सवृष-
नागरैः । पित्तकासे रसक्षीरगूषाश्चा-
प्युपकल्पयेत् ॥ २९ ॥

काकोली, बडी कटेरी, मेदा, महामेदा, अड्डसा और सोठ इनके काथमे सिद्ध किया हुआ रस, दूध और थूपका सेवन करे ॥ २९ ॥

बलाद्विवृहती द्राक्षा वासाभिः काथि-
तं जलम् । पित्तकासापहं पेयं शर्क-
रामधुयोजितम् ॥ ३० ॥

खिरैटी, कटेरी, बडी कटेरी, दाख और अड्डसा इनके काथमे मिश्री और शहद डालकर पान करे तो पित्तकी खाँसी दूर होती है ॥ ३० ॥

शटी त्रिवैरबृहती शर्करा विश्वभे-
षजम् । पक्का रसं पिबेत्पूतं सवृतं पित्त-
कासनुत् ॥ ३१ ॥

कचूर, सुगन्धवाला, बडी कटेरी, खाँड और सोठ इनके काथमे वक्षमे छानकर धी डालकर पान करे तो पित्तकी खाँसी दूर होती है ॥ ३१ ॥

सरादिपञ्चमूलस्य पिप्पलीद्राक्षयो-
स्तथा । कषायेण शृतं क्षीरं पिबेत्स-
मधुशर्करम् ॥ ३२ ॥

तृणपंचमूल, पीपल और दाख, इनको दूधमे औटाकर खांड और शहद डालकर पित्तकी खाँसीमे पान करे ॥ ३२ ॥

द्राक्षामधुकवर्जूरपिप्पलीमरिचान्वितम् । पित्तकासहरं ह्येतल्लिह्यान्माक्षिकसर्पिषा ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

दाख, मुलैठी, खजूर, पीपल और कालीमिरच इनका चूर्ण करके शहद और धीमे मिलाकर चाटे तो पित्तकी खाँसी दूर होती है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

षट्प्रस्थघृत ।

माहिष्यजाविगोक्षीरधात्रीफलरसैः समैः । सर्पिःप्रस्थं पचेद्युक्त्या पित्तकासनिवारणम् ॥ ३५ ॥

भैंस, बकरी, भेड और गौका दूध, प्रत्येक एकप्रस्थ, आमलोका रस १ प्रस्थ और घी १ प्रस्थ लेवे । सबको मिलाकर यथाविधिसे घृतको सिद्ध करे । यह घृत—पित्तकी खाँसीको दूर करता है ॥ ३५ ॥

द्वितीयक्षीरघृत ।

अपोथ्य क्षीरिणां शुङ्गान् पचेत्क्षीरचतुर्गुणे । द्राक्षाकल्के घृतं सिद्धं लिह्यात्तत्पित्तकासनुत् ॥ ३६ ॥

बड, गूलर, पीपल, पारिसपीपल और पाखर, इनके अंकुरोंको चौगुने दूधमें पकाकर काथ बनावे । फिर उस काथमे घी और दाखका कल्क डालकर घृतको सिद्ध करे । यह घृत—पित्तकी खाँसीको दूर करता है ॥ ३६ ॥

क्षीरवृक्षाङ्कुरकाथं पक्वं क्षीरसमं घृतम् । पाययेत्पित्तकासघ्नं मधुना चावलेहयेत् ॥ ३७ ॥

उक्त क्षीर वृक्षोके अंकुर लेकर दूधमे औटावे, फिर उस औटे हुए दूधमें बराबरका घी डालकर पकावे । जब पकते २ घृत अवशेष रह जाय तब उतार लेवे । फिर इसमे शहद मिलाकर पित्तकी खाँसीमे सेवन करे ॥ ३७ ॥

कफकासनिदान, चिकित्सा ।

—><—

प्रलिप्यमानेन मुखेन सिदिञ् शिरोरुजार्त्तः कफपूर्णदेहः । अभक्तरुग्गौरवसाद्युक्तः कासेद्द्रुशं सान्द्रकफः कफेन ॥ ३८ ॥

कफकी खाँसीमे—मुखमे कफ लिपटा रहनेसे पीडित रहना, शिरकी पीडासे व्याकुल, सम्पूर्ण शरीरका कफसे व्याप्त रहना, भोजनमे अरुचि, शरीरमे भारीपन, जडता और वारंवार गाढे कफको खाँसते समय थूकना आदि लक्षण होते है ॥ ३८ ॥

कफजे छर्दनं कार्यमामे लङ्घनमेव च । शस्तं यवान्नविकृतियूषाश्च कटुतिक्तकान् ॥ ३९ ॥

कफकी खाँसीमे प्रथम वमन करानी चाहिये, और जो कफ आम अर्थात् कच्चा हो तो प्रथम लंघन कराने चाहिए, तथा जौका अन्न कटु और तिक्त पदार्थोंका यूप एव कफकी प्रकृतिको नष्ट करना ये सब उपचार करने चाहिएँ ॥ ३९ ॥

नवांगयूष ।

मुद्गामलाभ्यां भवदाडिमाभ्यां कर्कन्धुना मूलकशुण्ठिकेन । शुण्ठीकणाभ्यां सकुलित्यकेन यूषो नवाङ्गः कफरोगहर्त्ता ॥ ४० ॥

मूँग, आमले, जौ, अनार, बेर, सूखीमूली, सोठ, पीपल और कुलथी इन नव औषधियोंका यूप कफरोगोंको नष्ट करता है ॥ ४० ॥

शठ्यादिघृत ।

शटीसातिविषा मुत्तं शृङ्गी कर्कटकस्य च । अभया शृङ्गबेरश्च समान्दृषदि पेषयेत् ॥ ४१ ॥ हिडुसैन्धवसंयुक्तं सुखोदकपरिप्लुतम् । काले पानाय दातव्यं श्लेष्मकर्मनिवर्हणम् ॥ ४२ ॥

कचूर, अतीस, नागरमोथा, काकडागिगी, हरड और अदरख इनको समान भाग लेकर पत्थर पर पीसकर हींग और सैधानमक मिलाकर मन्दोष्ण जलके साथ सेवन करे तो कफकी खॉसी दूर होती है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

तैलभृष्टश्च पिपल्याः कल्काक्षं ससि-
तोपलम् । पिबेद्वा कफवातघ्नं कुलि-
त्थं सलिलप्लुतम् ॥ ४३ ॥

पीपलके कल्कको तैलमे भूनकर और वहेडेके कल्कको मिश्रीके साथ सेवन करनेसे अथवा कुलथी के काथमें मिलाकर पान करनेसे कफ वातकी खॉसी दूर होजाती है ॥ ४३ ॥

पार्श्वशूले ज्वरे श्वासे कासे श्लेष्मस-
मुद्रवम् । पिप्पलीचूर्णसंयुक्तं दशमू-
लीजलं पिबेत् ॥ ४४ ॥

दशमूलके काथमे पीपलकाचूर्ण डालकर पार्श्वशूल, ज्वर, श्वास और कफकी खॉसीमे सेवन करे ॥ ४४ ॥

पौष्करं कट्फलं भाङ्गी विश्वपिप्प-
लिसाधितम् । पिबेत्काथं कफोद्रेके
कासश्वासे च हृद्ग्रहे ॥ ४५ ॥

पोहकरमूल, कायफल, भारंगी, सोठ और पीपल इनका काथ बनाकर पान करनेसे कफकी खॉसी, श्वास और हृदयरोग दूर होता है ॥ ४५ ॥

देवदारु शटी रास्ना शृङ्गी धन्वय-
वासकम् । तैलक्षौद्रयुतं लिह्याच्छ्ले-
ष्मकासे सुदारुणे ॥ ४६ ॥

देवदारु, कचूर, रायसन, काकडागिगी और धमासा इनका चूर्ण बनाकर तेल और शहद मिलाकर दारुण खॉसीमें चाटे ॥ ४६ ॥

व्योषपुष्करमृद्धीका त्रिफलाशटि-
चित्रकैः । मधुतैलयुतो लेहः श्लेष्म-
कासनिर्बहणः ॥ ४७ ॥

सोठ, मिरच, पीपल, पोहकरमूल, दाख, हरड, वहेडा, आमला, कचूर और चीता इनको पीसकर शहद और तेलमें मिलाकर चाटनेसे कफकी खॉसी दूर होती है ॥ ४७ ॥

बृहतकण्टकार्यादिवृत ।

समूलपत्रशाखायाः कण्टकार्या र-
साढके । घृतप्रस्थं बलाव्योषविडङ्ग-
शटिचित्रकैः ॥ ४८ ॥ सौवर्चलयव-
क्षारविल्वामलकपुष्करैः । वृश्चिरवृ-
हतीपथ्यायवानीदाडिमादिभिः ॥
॥ ४९ ॥ द्राक्षापुनर्नवाचव्यदुराल-
म्भाम्लवेतसैः । शृङ्गीतामलकीभा-
ङ्गीरास्नागोधुरकैः पचेत् ॥ ५० ॥ क-
ल्केस्तु सर्वकासेषु हिक्काश्वासे च श-
स्यते । कण्टकारीघृतं सिद्धं कफ-
कासनिपूदनम् ॥ ५१ ॥

कटेरीके पंचांगका एक आढक परिमाण रस लेवे उसमे घी एकप्रस्थ, खिरँटी, सोठ, पीपल, मिरच, वायविडंग, कचूर, चीता, कालानोन, जवाखार, वेलगिरी, आमले, पोहकरमूल, श्वेतपुनर्नवा, वडीकटेरी, हरड, अजवायन, अनार, दाख, रक्तपुनर्नवा, चव्य, धमासा, अम्लवेत, काकडागिगी, मुँडआमला, भारंगी, रायसन, और गोखरू इनका कल्क डालकर घृतको पकावे । यह घृत-सर्व प्रकारकी खॉसी, हिचकी और श्वासमें हितकारी है, यह विशेष कर कफकी खॉसीको दूर करता है ॥ ४८--५१ ॥

व्योषाद्यघृत ।

व्योषाजमोदचित्रकजीरकषड्ग्रन्थि-
कचव्यकलिकतम् । सर्पिः कफकास-
हरं वासकरससाधितं समधु ॥ ५२ ॥

सोठ, मिरच, पीपल, अजमोद, चीता, जीरा, वच और चव्य इनके कल्क और अडूसेके रसके द्वारा घृतको सिद्ध करे । इस घृतमे शहद मिलाकर सेवन करनेसे कफकी खॉसी दूर होती है ॥ ५२ ॥

निर्गुण्डीघृत ।

निर्गुण्डीपत्रस्वरसेन सिद्धं सर्पिः क-
फोत्थं विनिहन्ति कासम् ॥ ५३ ॥

निर्गुण्डीके पत्तोंके स्वरसमे घृतको पकाकर सेवन करनेसे कफकी खॉसी दूर होती है ॥ ५३ ॥

विभीतकं घृताभ्यक्तं गोशकृतपरिवे-
ष्टिनम् । स्विन्नमश्रीं हरेत्कासं ध्रुव-
मास्यविधारितम् ॥ ५४ ॥

ब्रह्मेको घोमे सानकर गोवरमे लपेटकर अग्निमे
पकाकर मुखमे रखनेसे खाँसी दूर होता है ॥ ५४ ॥

कटुफलादिकाथ ।

कटुफलं कतृणं भाङ्गीं मुस्तं धान्यं
बलाभया । शुण्ठी पर्पटकं शृङ्गी सु-
राह्वश्च जले शृतम् ॥ ५५ ॥ मधुहि-
ङ्गुयुतं पेयं कासे वातकफात्मके ।
कण्ठरोगे मुखे शूले श्वासे हिक्काज्व-
रेषु च ॥ ५६ ॥

कायफल, गुग्गुलु, भारंगी, नागरमोथा, धनियाँ,
चिरैँटी, हरद, साँठ, पित्तपापडा, काकडाङ्गिणी
और देवदारु इनके काथमे शहद और हींग डालकर
पान करनेसे वातकफजन्य खाँसी, कण्ठरोग, मुख-
शूल, ज्वास, हिचकी और ज्वर दूर होता है ५५॥५६

लवंगादिसमशर्कराचूर्ण ।

लवङ्गजातीफलपिप्पलीनां भागान्
प्रकल्प्याक्षसमानमीषाम् । कर्षार्धमेकं
मरिचस्य दद्यात्पलानि चत्वारि
महौषधस्य ॥ ५७ ॥ सितासमं चूर्णमिदं
प्रसह्य रोगानिमांस्तु प्रबलान्निहन्ति ।
कासज्वरारोचकमेहगुल्मथासाग्निमा-
न्द्यग्रहणीगदेषु ॥ ५८ ॥

लौंग, जायफल और पीपल ये प्रत्येक औपधि
एक २ तोला, कालीमिरच आधातोला, साँठ १६
तोले, इनका चूर्ण कर लेवे और सब चूर्णके समान
मिश्री लेवे । सबको मिलाकर चूर्ण बनावे । यह चूर्ण-
खाँसी, ज्वर, अरुचि, प्रमेह, गुल्म, श्वास, मँदाग्नि
और ग्रहणीरोगमे अत्यन्त हितकारी है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥

सिंहास्यामृतसिंहीनां काथं मधुस-
मायुतम् । पिबेत्सपित्ते कफजे कासे
श्वासे ज्वरे क्षये ॥ ५९ ॥

अडूसा, गिलोय और कटेरी, इनका काथ बना
कर शहद मिलाकर पान करनेसे पित्तकफज खाँसी,
श्वास, ज्वर और क्षयरोग दूर होता है ॥ ५९ ॥

वासकस्वरसः पेयो मधुयुक्तो हि-
ताशिना । पित्तश्लेष्मकृते कासे रक्त-
पित्ते विशेषतः ॥ ६० ॥

अडूसेके स्वरसमे शहद मिलाकर सेवन कर और
इसपर हितकारक भोजन करे तो पित्तकफज खाँसी
और विशेष कर रक्तपित्तरोग दूर होता है ॥ ६० ॥

वातश्लेष्मकृते कासे तालीसाद्यं प्र-
योजयेत् । पित्तयुक्ते भवेच्छ्रेष्ठं वंश-
रोचनया युतम् ॥ ६१ ॥

वात, कफकी खाँसीमे तालीसाद्य चूर्ण प्रयोग
करे और पित्तकी खाँसीमे वंशलोचनके साथ अडूसे
के रसको सेवन करे ॥ ६१ ॥

दशमूलाद्यघृत ।

दशमूलाढके प्रस्थं घृतस्याक्षसमैः
पचेत् । पुष्कराक्षशटीविल्वसुरसा-
व्योषहिंशुभिः ॥ ६२ ॥ पेयानुपानं
तत्पेयं कासे वातकफात्मके । श्वास-
रोगेषु सर्वेषु कफवातात्मकेषु च ॥ ६३ ॥

दशमूलका काथ एक आढक, गौँका घी १ प्रस्थ,
पाहकरमूल, बहेडा, कचूर, बेलगिरी, तुलसी, साँठ,
मिरच, पीपल और हींग इन सबको कल्क एक एक
तोला सबको मिलाकर यथाविधिसे घृतको पकावे ।
यह दशमूलाद्यघृत-अनुपान विशेषके साथ सेवन
किया हुआ वातकफकी खाँसी, सर्वप्रकारका श्वास
और सब प्रकारके कफवातजन्य रोगोंको दूर करता
है ॥ ६२ ॥ ६३ ॥

भृङ्गराजतैल ।

भृङ्गराजरसप्रस्थं शृङ्गवेररसं तथा ।
कटुतैलस्य च प्रस्थं गोमूत्रप्ररथसंयु-
तम् ॥ ६४ ॥ दशमूलकुलित्थाश्च शु-
ष्कमूलकशिष्टकम् । भाङ्गीं च कुडवां-
शानि काथयेत्सलिलाढके ॥ ६५ ॥
पादशेषेण तेनापि कल्कं दत्त्वा विपा-
चयेत् । देवदारुवचाकुष्ठं शताह्वल-

वणत्रयम् ॥ ६६ ॥ हिंशुतुम्बुरुणी-
व्योषं यवानी जीरकद्वयम् । चित्रकं
पिप्पलीमूलं वरो भृङ्गरसस्तथा ॥६७॥
कट्फलं चित्रकञ्चैव समभागानि का-
रयेत् । सम्यक् सिद्धञ्च विजाय पाने
नस्ये प्रयोजयेत् ॥ ६८ ॥ वातश्लेष्मा-
त्मके कासे प्रतिग्याये च पीनसे ।
श्वासरोगेषु सर्वेषु कफवातात्मकेषु
च । तैलं त्विदं भृङ्गराजं कफव्याधि-
विनाशनम् ॥ ६९ ॥

भांगरेका रस १ प्रस्थ, अदरसका रस १ प्रस्थ,
कडवातेल १ प्रस्थ और गोमूत्र १ प्रस्थ लेवे, दश-
मूलकी सम्पूर्ण औषधि, कुलथी, सूखीमूली, सहिंजने
की जड़ और भारंगी ये प्रत्येक औषधि सोलह २
तोले लेकर सबको १ आढक परिमाण जलमे पकावे
जब चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर
छानलेवे । फिर उक्त सब पदार्थ और इस काथको
मिलाकर देवदारु, वच, कूट, सौफ, तीनो लवण,
हींग, तुम्बुरु, त्रिकुटा, अजवायन, जीरा, काला-
जीरा, चीता, पीपलामूल, त्रिफला, भांगरा, कायफल
और चीता इनका कल्क मिलाकर पचावे जब सिद्ध
होजाय तब इसको पान और नस्यमे प्रयोग करे ।
यह भृंगराज तैल--वात कफकी खाँसी, प्रतिग्याय,
पीनस और सब प्रकारके वात जन्य श्वासरोगमें हित-
कारी है । यह तैल कफव्याधि नाशक है ॥६४-६९॥

उरःक्षतजकासरोगनिदान ।

—❖❖❖❖—

अतिव्यवायभाराऽध्वयुद्धाश्वगजनि-
ग्रहैः । रूक्षस्योरःक्षतं वायुर्गृहीत्वा
कासमावहेत् ॥ ७० ॥ स पूर्वं कास-
ते शुष्कं ततः ष्टीवेत्सशोणितम् । क-
ण्ठेन रुजताऽत्यर्थं निभिन्नैव चोर-
सा ॥ ७१ ॥ सूचिभिरिव तीक्ष्णाभि-
स्तुद्यमानेन शूलिना । दुःखस्पर्शेन
शूलेन भेदपीडाभितापिना ॥ ७२ ॥

पर्यभेदञ्चरथासतृष्णावैस्वर्ग्यपीडितः।
पारावत इवाकूजन् कासवेगात् क्षतौ
भवेत् ॥ ७३ ॥

अत्यन्त मैथुन करनेसे, बहुत बोझके उठानेसे,
बहुतमार्गके चलनेसे, युद्ध करनेसे और भागते हुए
हाथी बोडोको रोकनेसे, रुखे मनुष्यकी छातीमें
घाव होकर उसमें वायु प्राप्त हो खाँसीको करती है।
प्रथम वह मनुष्य सूखा खाँसता है, फिर रुधिर थूक-
ता है, कंठमे अत्यन्त पीडा होती है, हृदयमें फटने
सरीखी पीडा होती है, सुईकी समान तीक्ष्ण और
तोडने सरीखी पीडा हो, लुआ भी न जाय, छेदन
भेदनके समान पीडा हो, संधियोंमे हडफूटन, ज्वर,
श्वास, तृषा, स्वरभंग और कवूतरके समान कूजता है
यह श्रतोत्पन्न खाँसीके लक्षण जानने चाहिये ॥७०॥
॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥

चिकित्सा ।

कासे तु क्षतजे वल्यैर्जीवनीयैर्घृतैरपि ।
शमनैः पित्तकासघ्नैरन्यैश्च मधुरौषधैः
॥ ७४ ॥

क्षतजखाँसीमे बलकारक, जीवनीय घृत, शमन
और पित्तकासनाशक तथा अन्यान्य मधुर औषधियोंके
द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ७४ ॥

यवागूं वा पिबेत्सिद्धां क्षतोरस्कः सु-
शीतलाम् ॥ ७५ ॥

उर क्षतकी खाँसीमे यवागूको खूब शीतल करके
पान करे ॥ ७५ ॥

द्राक्षेक्षुवालिकापद्ममृणालोत्पलचन्द-
नैः । शृतां पेयां मधुयुतां सन्धानार्थं
पिबेत्क्षती ॥ ७६ ॥

दाख, इक्षुवालिका (एक प्रकारके तृण), कमल,
कमलकी नाल, कुमुद और चन्दन इनके काथमे सि-
द्ध कीहुई पेया शहद डालकर क्षतसन्धानके लिये पान
करे ॥ ७६ ॥

इक्ष्वाद्यावलेह ।

इक्ष्विक्षुवालिकापद्ममृणालोत्पलच-
न्दनैः । मधुकं पिप्पली द्राक्षा लाक्षा

शृङ्गी शतावरी ॥ ७७ ॥ द्विगुणा
च तुगाक्षीरी सिता सर्वैश्चतुर्गुणा ।
लिह्यात्तन्मधुसर्पिर्भ्यां क्षतकासनि-
वृत्तये ॥ ७८ ॥

ईस, इक्षुवालिका (तृणविशेष), कमल, कमल-
की नाल, कमोदनी, चंदन, मुँलैठी, पीपल, दाख,
लाख, काकडासिगी और गतावर ये सब समान
भाग, बंगलोचन दुगुना और मिश्री सबसे चौगुनी
लेनी चाहिये । सबको मिलाकर अवलेह बनावे । इसमें
शहद और घी डालकर चाटे तो क्षतकी खाँसी दूर
होती है ॥ ७७ ॥ ७८ ॥

पिप्पली पत्रकं द्राक्षा सुपकं बृहती-
फलम् । घृतक्षौद्रयुतो लेहः क्षतका-
सनिवर्हणः ॥ ७९ ॥

पीपल, पत्राख, दाख, पकेहुए वडीकटेरीके फल
इन सबका एकत्र चूर्ण करके शहद और घीमें मिला
कर सेवन करे तो क्षतकी खाँसी दूर हो ॥ ७९ ॥

मञ्जिष्ठमूर्वानतवह्निपाठाः कृष्णां ह-
रिद्रां विलिहोद्विचूर्ण्य । क्षौद्रिण कामे
क्षतजे क्षयोत्थे पिवेद्घृतं चक्षुरसे
विपकम् ॥ ८० ॥

मजीठ, मूर्वा, तगर, चीता, पाठ, पीपल और
हल्दी इनका चूर्ण करके शहदमें मिलाकर चाटे तो
क्षत और क्षयज खाँसी दूर होती है अथवा ईखके
रसमें घीको पकाकर पान करनेसे क्षतकी खाँसी
दूर होती है ॥ ८० ॥

क्षीरपाक ।

इक्षिवक्षुवालिकापद्ममृणालोत्पलच-
न्दनैः । शृतं पयो मधुयुतं सन्धानार्थं
पिबेत् क्षती ॥ ८१ ॥

ईस, इक्षुवालिका, कमल, कमलकी नाल, कमो-
दनी और चन्दन इनको दूधमें औटाकर शहद मिला
कर क्षत्रोगी-संधानके लिए पान करे ॥ ८१ ॥

वासाकूष्माण्ड ।

पञ्चाशच्च पलं स्वित्रं कूष्माण्डात्प्रस्थ-
माज्यतः । पक्वं पलशतं खण्डं वासा-
काथाढके पचेत् ॥ ८२ ॥ शुभ्रा धात्री

घनो भार्ङ्गी त्रिसुगन्धैश्च कार्षिकैः ।
पिप्पली कुडवश्चैव मधुमानं प्रदापेय-
त् ॥ ८३ ॥ कासं श्वासं क्षयं हिककां
रक्तपित्तं हलीमकम् । हृद्रोगमम्लपि-
त्तञ्च पीनसञ्च व्यपोहति । भुक्तसर्पिषु
कूष्माण्डे पाके गन्धेन मुद्रया ॥ ८४ ॥

उसीजिहुए और छिलेहुए पेटके ५० पल दुकडे
लेकर एक प्रस्थ घीमें भून लेवे । फिर उन दुकडेको
और शुद्ध सौ पल खांडको एक आढक पारमाण अडू-
सेके साथमें डालकर पकावे । जब पकते २ गाढा हो-
कर अवलेहके समान होजाय तब बंगलोचन, आमले,
नागरमोथा, भारंगी, दालचीनी, इलायची और
तेजपात प्रत्येकका चूर्ण एक २ तोला मिला देवे ।
पीपलका चूर्ण १६ तोले और शीतल होनेपर शहद
३२ तोले मिला देवे । यह खाँसी, श्वास, क्षय, हिच-
की, रक्तपित्त, हलीमक, हृदयरोग, अम्लपित्त
और पीनस रोगको दूर करता है । पेटको घी मिला
कर पकानेसे सिद्ध होजानेका अंदाजा उसकी सुगंध
और चासनीके रंगसे होता है ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥

अथ क्षयजकासनिदान ।

विषमासात्स्यभोज्यातिव्यवायाति-
प्रजागरैः । घृणिनां शोचतां नृणां व्या-
पन्नेऽग्नौ त्रयो मलाः ॥ ८५ ॥ कुपिताः
क्षयजं कासं कुर्युर्देहक्षयप्रदम् ॥ ८६ ॥
सगात्रशूलज्वरदाहमोहान् प्राण-
क्षयं चोपलभेत कासी । शुष्कञ्च नि-
ष्ठीवति दुर्बलञ्च प्रक्षीणमांसो रुधिरं
सपूयम् ॥ ८७ ॥ तं सर्वलिङ्गं भृशदु-
श्चिकित्स्यं चिकित्सितज्ञाः क्षयजं
वदन्ति ॥ ८८ ॥

विषम भोजन करनेसे, असात्म्य (स्वभावके
विरुद्ध) भोजन करनेसे, अत्यंत मथ्युन करनेसे और
अधिकतर जागनेसे, घृणाको करनेवाले और चिता
करनेवाले मनुष्योंके आग्निके मंद होजानेपर तीनों
दोष कुपित होते हैं । वे कुपित हुए दोष देहको नष्ट
करनेवाली क्षयकी खाँसीको उत्पन्न करते हैं । नए उसमें

शरीरमे पीडा, उजर, दाह, मोह, प्राणक्षय, सूखी खांसी उठना, रोगीका दुर्बल होना, मांस क्षीण होना, रुधिर और राधका थूकना, आदि लक्षण होते हैं। उन सम्पूर्ण दोषोंके लक्षणोंसे युक्त क्षयज खांसीको वैद्य लोग अत्यंत दुश्चिकित्स्य कहते हैं ॥ ८९-८८ ॥

इत्येष क्षयजः कासः क्षीणानां देह-
नाशनः। साध्यो बलवतां वा स्याद्या-
प्यस्त्वेवं क्षतोत्थितः ॥ ८९ ॥ नवौ
कदाचित् सिध्येतामपि पादगुणा-
न्वितौ। स्थविराणां जराकासः स-
र्वो याप्यः प्रकीर्तितः ॥ ९० ॥ त्रीन्
पूर्वान् साधयेत् साध्यान् पथ्यैर्या-
प्यांस्तु यापयेत् ॥ ९१ ॥

यह क्षयज खांसी क्षीण मनुष्योंके देहको नष्ट कर-
नेवाली है। बलवान् मनुष्योंके साध्य अथवा याप्य
होती है। इसीप्रकार क्षतज खांसी जाननी। जो ये
दोनोंप्रकारकी खांसी नवीन उत्पन्न हुई हो और
चिकित्साके चार पाद ठिक हो तो कदाचित् साध्य
होती है और वृद्ध मनुष्योंके उत्पन्न हुई जरा अव-
स्थाकी सर्व खांसी याप्य होती है। पहिली तीन बात
पित्त और कफकी खांसी साध्य है उनकी औषधियोंके
द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये। और पथ्य सेवन
करके याप्यकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ८९ ॥
॥ ९० ॥ ९१ ॥

चिकित्सा ।

पिप्पली पद्मकं लाक्षा संपक्वं बृहती-
फलम् । घृतक्षौद्रयुतो लेहः क्षयका-
सनिबर्हणः ॥ ९२ ॥

पीपल, पद्माख, लाख और पकेहुए बडकटेरीके
फल इनको एकत्र पीसकर घी और शहदमे मिलाकर
चाटे तो क्षयकी खांसी दूर होती है ॥ ९२ ॥

चूर्ण काकुभनिष्कं वासकरसभावितं
बहून्वारान् । मधुघृतसितोपलामिले-
ह्यं क्षयकासपित्तहरम् ॥ ९३ ॥

अजुनकी छालका चूर्ण चारमासे लेकर अड़सेके
रसमे बहुत बार भावना देकर शहद घी और मिश्री

मिलाकर सेवन करे तो क्षयकी खांसी और
पित्त दूर होता है ॥ ९३ ॥

पिप्पल्यादिघृत ।

पिप्पलीगुडसंसिद्धं छागक्षीरयुतं घृतम् ।
एतदग्निविवृद्धयर्थं सर्पिश्च क्षयकासि-
नाम् ॥ ९४ ॥

पीपल, गुड, बकराका दूध और घी इनको एकत्र
पकाकर सेवन करनेसे यह—क्षयकी खांसीको दूर
करता है और अग्निको दीपन करता है ॥ ९४ ॥

कुलीरादिघृत ।

कुलीरशुक्तींश्चटकेण लावान्निःकाथ्य
वर्यैर्मधुरैस्तथान्यैः। पचेद्घृतं तत्तु नि-
षेव्यमाणं हन्यात् क्षयोत्थं क्षतजश्च
कासम् ॥ ९५ ॥

केकडा, जीप, चिडा, हिरन और लवा इनके काथ
मे तथा अन्यान्य मधु वर्गीकी औषधियोंके काथमे घी
को पकावे। यह घी-क्षय और क्षतकी खांसीको दूर
करता है ॥ ९५ ॥

द्विपंचमूलादिघृत ।

द्विपञ्चमूलीत्रिफलाभाङ्गीं शुण्ठीस-
चित्रकैः । कुलित्थापिप्पलीमूलपाठा-
कोलयवैर्जले ॥ ९६ ॥ शृते नागरदुः-
स्पर्शशटीपिप्पलपौष्करैः । कल्कैः
कर्कटशृङ्गा च समैः सर्पिर्विपाचयेत्
॥ ९७ ॥ सिद्धेऽस्मिञ्चूर्णितौ क्षारौ द्वौ
पञ्चलवणानि च । दत्त्वा युक्त्या
पिबन्मात्रां क्षयकासनिपीडितः ॥ ९८ ॥

दशमूलकी समस्त औषधिये, त्रिफला, भारगी,
सोठ, चीता, कुलथी, पीपलामूल, पाठ, वेर और जौ,
इनके काथमे सोठ, धमासा, कचूर, पिपल, पोहकर-
मूल और काकडाशिगी, इनका कल्क और उत्तम घी
डालकर घृतको पकावे। जब घृत सिद्ध होजाय तब
जवाखार सजी और पांचोचनमक इनका चूर्ण मिला
देवे। इसको युक्तिपूर्वक सेवन करे। यह घृत क्षयकी
खांसीको दूर करता है ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥

अश्वगन्धादिवृत ।

शुभेऽहि सुदेशसंभूतं मूलशतं सम्य-
मश्वगन्धायाः । पुण्येऽहनि संक्षुण्णं
विपचेद्रोणेऽम्भसि च विद्वान् ॥ ९९ ॥
ज्ञात्वाष्टभागसिद्धं गृहीयात्तद्रसं सु-
परिपूतम् । द्वे चैवात्र पलशते दद्या-
च्छागस्य मांसस्य ॥ १०० ॥ सर्पिः
प्रस्थमथैकं गव्यञ्च पयश्चतुर्गुणं दद्या-
त् । कल्कानक्षसमानानूर्ध्वमतः संप्र-
वक्ष्यामि ॥ १०१ ॥ काकोलीद्वयमृ-
द्धी मेदे द्वे जीवकं स्वयंगुताम् । वृ-
षभकमैलां मधुकं मृद्रीकां यासपि-
प्लव्यौ ॥ १०२ ॥ जीवन्तीमुपकु-
ल्यां बलां विदारीं शतावरीं चात्र ।
दत्त्वा सम्यग्विपचेत् सर्पिरथोद्धृत्य
स्थित्वा च ॥ १०३ ॥ मधुशर्करयोः
कुडवं दत्त्वा भाण्डे शुभे स्थितं मृदि-
तम् । लीड्वा तत्पाणितले यथेष्टमा-
हारमश्रीयात् ॥ १०४ ॥ क्षीणक्षत-
शिशुवृद्धाः क्षीणेन्द्रियहीनबलवर्ण-
मांसाश्च । प्राश्य प्रकुर्यात् सद्यः पु-
ष्टिबलारोग्यतेजांसि ॥ १०५ ॥ उ-
पयुज्य सर्पिरेतत्सप्ततिवर्षो युवेव पुन-
र्भूत्वा । बहुशः स्त्रियोऽधिगच्छेन्न चा-
त्र शुक्रक्षयं लभते ॥ १०६ ॥ पुत्रा-
र्थिनी च नारी लभते पुत्रान्वयस्य-
तीतिऽपि । वन्ध्या लभते पुत्रं प्राश्ये-
द्यश्चाश्वगन्धाद्यम् ॥ १०७ ॥ उपयुक्ते
यः पुरुषो मासत्रयं द्विमासं वा ।
नारीशतं स गच्छेन्नैव भजेद्योषितां
तृप्तिम् ॥ १०८ ॥ खालित्यवलीपलि-
तैर्न चास्य देहोऽभिभूयते क्षिप्रम् ।
वातव्याधिभिरार्त्तस्तथैव हृदस्तिरो-
गार्त्तः ॥ १०९ ॥ न चिरादपि रोगा-
र्त्ता भुञ्जानाः सर्पिररोगा भवन्ति ।

अतो जगद्धितार्थिसर्पिरिदं वाजिग-
न्धायाः ॥ ११० ॥ श्रेष्ठं वाजीकरणं नि-
र्दष्ट्वाश्विभ्यां पूर्वं बहुशः । प्रोक्तं वृष्यं
बल्यं क्षयकासहरं पुष्टिकरञ्च ॥ १११ ॥

शुभादिन, शुभनक्षत्रमे उत्तमदेशमे उत्पन्न हुई
असगन्धकी जल १०० पल लेकर कूटकर एकद्रोण
जलमे पकावे । जब पकते २ आठवा भाग जलशेष
रहजाय तब उतारकर वस्त्रमे छान लेवे । फिर उसमे
२०० पल चकरेका मांस, घी १ प्रस्थ और गौका
दूध चौगुना, एव काकोली, क्षीरकाकोली, ऋद्धि,
वृद्धि, मेदा, महामेदा, जीवक, कौष्ठ, अडूसा, इलायची,
मुलेठी, दाख, जवासा, पीपल, गजपीपल, जीवन्ती,
छोटीइलायची, खिरैटी, विदारीकंद और शतावर,
प्रत्येकका कल्क एक २ तोला सबको यथा विविसे
मिलाकर घृतको सिद्ध करे । जब घृत सिद्ध होजाय
तब गीतल होजानेपर शहद और मिश्री सोलह २तोले
डालकर मर्दन करके एक उत्तम चिकने वासनमे भर
कर रख देवे । फिर प्रतिदिन इसमेसे एकतोला परिमाण
हथेली पर रखकर सेवन करे । इसपर यथेष्ट आहार
करे । इसके सेवनसे क्षतक्षीण, बालक, वृद्ध, क्षीण-
इन्द्रिय, बल, वर्ण और मासक्षीण मनुष्यके तत्काल
पुष्टि, बल, आरोग्यता और तेजकी वृद्धि होती है इस
घृतसे सत्तर वर्षका पुराना मनुष्यभी फिरसे युवा
होजाता है और वह अनेक स्त्रियोमे रमण करता है
और वह कदापि वीर्य्यक्षयको प्राप्त नहीं होता है ।
पुत्रकी इच्छा करनेवाली स्त्री अवस्थाके व्यतीत होने
परभी उत्तम पुत्रको जनती है तथा इसके सेवनसे
वन्ध्यास्त्री भी सर्वगुणसम्पन्न पुत्रको उत्पन्न करती है ।
जो मनुष्य इस घृतको एकमहीने अथवा दो महीने
किम्वा तीन महीनेतक सेवन करता है वह सौ स्त्रियो
के पास जा सकता है तथा कदापि स्त्रियोके भोग-
नेमे तृप्त नहीं होता । तथा इसके प्रतापसे शीघ्रही
खालित्य, बलि और पलित्तयुक्त नहीं होता । वात-
व्याधि, हृदयरोग और वस्तिरोग नहीं होता । इस
घृतके सेवन करनेवाले मनुष्य बहुत कालतक रोगी
नहीं होते । इसी लिए यह अश्वगन्धादि घृत ससारके
हितके लिये कहा है । यह श्रेष्ठ, वाजीकरण, वृष्य,
बल्य, क्षयकासनाशक और पुष्टिकारक है । इसको
अश्विनीकुमारोंने निर्माण किया है ॥ ९९-१११ ॥

पिप्पल्याद्यवलेह ।

पिप्पलीमधुकं वापि कार्षिकञ्च सि-
तोपलम् । प्रस्थिकं गव्यमाज्यञ्च क्षी-
रभिक्षुरसस्तथा ॥ ११२ ॥ यवगोधू-
ममृद्धीकाचूर्णमामलकाद्रसम् । तैल-
ञ्च प्रसृतांशानि तत्सर्वं मृदुनाग्निना
॥ ११३ ॥ पचेत्लेहं घृतक्षौद्रयुक्तः स-
श्वासकासनुत् । क्षयहृद्भोगकासघ्नो
हितो वृद्धाऽल्परेतसाम् ॥ ११४ ॥

पीपल और मुलैठी प्रत्येक एक एक कर्ष,
मिश्री १ प्रस्थ, गौका वी १ प्रस्थ, दूध १ प्रस्थ, ईखका
रस १ प्रस्थ, जौ और गेहूँका चूर्ण, दाख, आमलोका
रस और तिलका तेल, प्रत्येक आठ आठ तोले,
सबको मिलाकर मंद मंद अग्निसे पकावे। जब लेहके
समान होकर शीतल होजाय तब शहद और घी मिला
देवे। यह अवलेह-श्वास, खाँसी, क्षय और हृदय-
रोगको दूर करता है तथा वृद्ध और अल्पवीर्य वाले
मनुष्योंको हितकारी है ॥ ११२ ॥ ११३ ॥ ११४ ॥

क्षयकास ।

सन्निपातभवो ह्येषः क्षयकासः सुदा-
रुणः । सन्निपातहितं तस्मात्कार्य-
मत्र चिकित्सितम् ॥ ११५ ॥

यह दारुण क्षयकी खाँसी विशेषकर सन्निपातसे
उत्पन्न होती है इस कारण इसमें सन्निपातमे जो हित-
कारक चिकित्सा कही है वह सब करनी चाहिए
॥ ११५ ॥

कासश्वास ।

अमृता नागरं फञ्जी व्याघ्रपर्णी सु-
साधितः । काथः पिप्पलिचूर्णाट्यः
कासश्वासौ जयत्यलम् ॥ ११६ ॥

गिलोय, सोठ, भारंगी और शालिपर्णी इनके काथ
में पीपलका चूर्ण डालकर सेवन करे तो खाँसी और
श्वास शीघ्र दूर होता है ॥ ११६ ॥

भाङ्गी सनागरासिंही कुलित्थं नूल-
कं तथा । पिबेत्पिप्पलिचूर्णेन कास-
श्वासं व्यपोहति ॥ ११७ ॥

भारंगी, सोठ, कटेरी, कुलथी और मूली इनके काथ
में पीपलका चूर्ण डालकर पान करे तो खाँसी और
श्वास दूर होता है ॥ ११७ ॥

स्वरसं शृङ्गवेरस्य भाक्षिकेन सम-
न्वितम् । पाययेत्कासश्वासघ्नं प्रति-
श्यायकफापहम् ॥ ११८ ॥

अदरखके रसमें शहद मिलाकर पानसे खाँसी,
श्वास, प्रतिश्याय और कफका नाश होता है ॥ ११८ ॥

पथ्या शुण्ठीघनगुडैर्गुटिकां धारय-
न्मुखे । सर्वेषु श्वासकासेषु केवलं वा
विभक्तिकम् ॥ ११९ ॥

हरड, सोठ, नगरमोथा और गुड, इनकी गोली
बनाकर मुखमें धारण करे तो सर्वप्रकारकी खाँसी
और श्वास दूर होता है अथवा केवल वहेडेको
मुखमें धारण करनेसे भी वही फल होता है ॥ ११९ ॥

नागरेणाभया तद्वत्कासमाशु व्यपो-
हति ॥ १२० ॥

उक्त प्रकारसे सोठ और हरडके चूर्णको सेवन
करनेसे खाँसी और श्वास दूर होता है ॥ १२० ॥

सपिप्पलीपुष्करमूलपथ्याशुण्ठीशि-
टीमुस्तकसूक्ष्मचूर्णैः । गुडेन युक्ता गु-
टिकाः प्रयोज्याः श्वासेषु कासेषु
च वर्धितेषु ॥ १२१ ॥

पीपल, पोहकरमूल, हरड, सोठ, कचूर और
नागरमोथा इनका वारीक चूर्ण बनाकर गुडमें मिला-
कर गोलियाँ बना लेवे। यह गोलिये सर्वप्रकारकी
बढी हुई खाँसी और श्वासको दूर करती है ॥ १२१ ॥

अष्टाङ्गचूर्णसंयुक्तं पक्ता क्षीरं प्रयोज-
येत् । कासं श्वासान्वितं घोरं हन्या-
देतन्न संशयः ॥ १२२ ॥

अष्टांगचूर्णको दूधमें औटाकर पान करनेसे खाँसी
और घोर श्वासरोग निश्चयनष्ट होता है ॥ १२२ ॥

पञ्चकोलैः शृतं क्षीरं कफघ्नं लघु श-
स्यते । श्वासकासारुचिहरं बलवर्णा-
ग्निवर्धनम् ॥ १२३ ॥

पंचकोलकी औषधियोंके द्वारा दूधको औटाकर पान करे तो वह दूध हलका और कफनाशक होता है तथा श्वास खाँसी और अरुचिको दूर करता है, एवं बल, वर्ण और अग्निको बढ़ाता है ॥ १२३ ॥

वाम्यमानस्य कासेन नासास्त्रावे स्वरे जडे । क्षवथौ गन्धनासे च धूमपानं प्रयोजयेत् ॥ १२४ ॥

जो कासरोगी वमनसे पीडित है, तथा जिनके नाकके द्वारा जलका स्राव होता है, स्वर जड़ होगया है, छींक और नाकमे दुर्गन्ध आती है उनको धूमपान प्रयोग करना चाहिए ॥ १२४ ॥

धूमपान ।

मनःशिलैलामरिचं भांसी मुस्तंसगुग्गुलुम् । धूमं तस्यालु च पयः सुखोष्णं सगुडं पिवेत् ॥ १२५ ॥ पञ्चकासान् क्षयद्रन्द्रसर्वदोषसमुत्थितान् । शतैरपि प्रयोगाणां साधयेदप्रसाधितान् ॥ १२६ ॥

मैनशिल, इलायची, कालीमिरच, वालछठ, नागर-मोथा और गुगल इनको एकत्र मिलाकर धूमपान करे। और उसके पश्चात् मन्दोष्ण दूधमे गुड मिलाकर पीवे । यह पाचोप्रकारकी खाँसी, क्षयज खाँसी, द्रुम्वज खाँसी, सर्वदोषजन्य खाँसी, और जो सैकड़ो औषधि करनेसे भी आरोग्य नहीं हुई उस खाँसीको यह धूम अवश्य दूर करदेता है ॥ १२५ ॥ १२६ ॥

मनःशिलालिप्तदलं बदर्या धर्मशोषितम् । सक्षीरं धूमपानन्तु महाकासनिवारणम् ॥ १२७ ॥

मैनशिलको पीसकर बेरीके पत्तोपर लेप करके धूपमे सुखाकर धूमपान करे और ऊपरसे दूध पान करे तो महादारुण खाँसी दूर होती है ॥ १२७ ॥

पिप्प्ला त्रिपुटधनूरमूलव्योषमनःशिलाः ॥ तेन प्रलिप्य वसनं धूमवार्तिः प्रयोजयेत् ॥ १२८ ॥ धूमं तस्याः पिबेद्यस्तु त्र्यहात्कासमुदस्यति ॥ १२९ ॥

तिसोत, धतूरेकी जड़, त्रिकुटा और मैनशिल इनको एकत्र पीसकर कपडेपर लेपकर उसकी बत्ती

वनाकर धूमपान करनेसे तीनदिनमे खाँसी दूर होजाती है ॥ १२८ ॥ १२९ ॥

अर्कक्षरिशिले तुल्ये तदर्द्धञ्च कटुत्रिकम् । चूर्णितं वह्निनिःक्षिप्तं पिवेद्दूमन्तु योगवित् ॥ १३० ॥

आकका दूध और मैनशिल यह दोनों समान भाग और त्रिकुटा आधा भाग, सबको एकत्र पीसकर अग्निमे डालकर धूमपान करे ॥ १३० ॥

जातेरुत्तरदिङ्मूलं शिलैलागुग्गुलुः समः । अजामूत्रेण पिष्टोऽयं धूमः कासहरः परः ॥ १३१ ॥ भक्षयेदथ तच्चूर्णं पिवेद्दुग्धमथांबुना । कासाः पञ्चविधा यान्ति शान्तिमाशु न संशयः ॥ १३२ ॥

उत्तर दिशामे उत्पन्न हुई चमेलीकी जड़, मैनशिल, इलायची और गुगल इन सबको समान भाग ले एकत्र बकरीके मूत्रमे पीसकर धूमपान करनेसे खाँसी दूर होती है। अथवा इन्हीं औषधियोंके चूर्णको दूध या जलके साथ पान करे तो पांचप्रकारकी खाँसी शान्त होजाती है ॥ १३१ ॥ १३२ ॥

कण्टकार्यादिकाथ ।

कण्टकारीकृतः काथः सकृष्णः सर्वकासहा । कण्टकार्याः कणायाश्च चूर्णं मधुयुतं लिहेत् ॥ १३३ ॥

कटेरीके काथमें पीपलका चूर्ण डालकर पीनेसे सर्वप्रकारकी खाँसी दूर होती है। कटेरी और पीपलके चूर्णको शहद मिलाकर सेवन करे तो सर्वप्रकारकी खाँसी दूर होती है ॥ १३३ ॥

देवदारुबलारास्त्रात्रिफलाव्योषपन्नकैः । सविडङ्गः शिलातुल्यं तच्चूर्णं सर्वकासनुत् ॥ १३४ ॥

देवदारु, खिरैटी, रायसन, त्रिफला, त्रिकुटा, पद्मास, वायविडंग और मैनशिल, इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण कर सेवन करे । यह चूर्ण सर्व प्रकारकी खाँसीको दूर करता है ॥ १३४ ॥

कुनट्यादिलेह ।

कुनटीसैन्धववयोषविडङ्गामलहिङ्गु-
भिः । लेहः साज्यमधुः कासश्वास-
हिककानिवारणः ॥ १३५ ॥

मैतशिल, सैधानमक, त्रिकुटा, वायविडंग, आमले
और हींग इनका चूर्ण करके शहद और घी मिलाकर
चाटे तो खाँसी, श्वास और हिचकी दूर होती है ॥ १३५ ॥

हरीतक्यादिमोदक ।

हरीतकीकणाशुण्ठी मरिचं गुडसंयु-
तम् । कासघ्नो मोदकः प्रोक्तः परं
चानलदीपनः ॥ १३६ ॥

हरड, पीपल, सोठ, कालीमिरच और गुड इन
सबको एकत्र पीसकर मोदक बनावे । यह मोदक
खाँसीको हरते है और अग्निको दीपन करते है ॥ १३६ ॥

समशर्करचूर्ण ।

शुण्ठीकणामरिचनागदलत्वगेलं चू-
र्णिकृतं क्रमविवर्द्धितमूर्ध्वमन्त्यात् ।
खादेदिदं समासितं गुदजाग्निमान्द्य-
गुल्मारुचिश्चसनकण्ठहृद्दामयेषु ॥ १३७ ॥

इलायची १ भाग, दालचीनी २ भाग, तेजपात
३ भाग, नागकेशर ४ भाग, कालीमिरच ५ भाग,
पीपल ६ भाग और सोठ ७ भाग लेवे । सबको एकत्र
चूर्ण कर सबके बराबर मिश्री मिला लेवे । यह
समशर्करचूर्ण-बवासीर, मंदाग्नि, गुल्म, अरुचि,
श्वास, कण्ठ और हृदयरोगको दूर करता है ॥ १३७ ॥

बृहत्समशर्करचूर्ण ।

लवङ्गजातीफलपिप्पलीनां भागान्
प्रकल्प्याक्षसमानमीषाम् । पलार्धमात्रं
मरिचस्य दद्यात्पलानि चत्वारि म-
हौषधस्य ॥ १३८ ॥ सितासमं चूर्ण-
मिदं प्रसह्य रोगानिमानाशु बला-
त्रिहन्त्यात् । कासज्वरारोचकमेहगुल्म
श्वासाग्निमान्द्यग्रहणीप्रदोषान् १३९

लौंग, जायफल और पीपल प्रत्येक एक २ तोला
कालीमिरच २ तोले और सोठ १६ तोले और
सबके बराबर मिश्री । सबका एकत्र वारीक चूर्ण
कर लेवे । यह बृहत्समशर्करचूर्ण-खाँसी, ज्वर, अरुचि,
प्रमेह, गुल्म, श्वास, मंदाग्नि और संग्रहणीका दूर
करता है ॥ १३८ ॥ १३९ ॥

मरिचादिचूर्ण ।

कर्षः कर्षार्द्धिमथो पलं पलद्वयं तथा-
र्द्धिकर्षश्च । मरिचस्य पिप्पलीनां दा-
डिमगुडयावशूकानाम् ॥ १४० ॥
सर्वौषधैरसाध्या ये कासाः सर्ववैद्य-
निर्मुक्ताः । अपि पूयं हृदयतां ते-
षामिदमौषधं पथ्यम् ॥ १४१ ॥

कालीमिरच १ तोला, पीपल आधा तोला, अनारके
फूलका वकल ४ तोले, गुड ८ तोले और जवाखार
आधा तोला लेवे । सबको एकत्र पीसकर गोली बना
लेवे । जो खाँसी सैकडो औषधि करनेसेभी आरोग्य
नहीं हुई और जो वैद्यकरके वर्जित है तथा जिनके
थूकते समय राध निकलती है उनके लिये यह औषधि
पथ्य है । इसमे दाडिमके छिलका लेना चाहिये ॥
॥ १४० ॥ १४१ ॥

विभीतकावलेह ।

प्रस्थं विभीतकानामस्थि विहाय
साधयेदजामूत्रे । लेहेयेदवलेहोऽयं
मधुयुक्तः श्वासकासघ्नः ॥ १४२ ॥

एकप्रस्थ बहेडेकी गिरी लेकर बकरीके मूत्रमे पका-
वे । जब पकते २ लेहके समान होजाय तब शहद
मिलाकर सेवन करे तो सर्व प्रकारकी खाँसी और
श्वास दूर होता है ॥ १४२ ॥

जीवन्त्यादिचूर्ण ।

जीवन्तीं मधुकं पाठां त्वक्क्षीरं त्रि-
फलां शठीम् । मुस्तैलां पिप्पलीं द्रा-
क्षां द्वे बृहत्यौ विभीतकम् ॥ १४३ ॥
शारिवां पौष्करं मूलं कर्कटाख्यां
रसाञ्जनम् । पुनर्नवां लोहरजस्त्राय-

माणं यवानिकाम् ॥ १४४ ॥ भाङ्गी-
तामलकीमृद्धिं विडङ्गं धन्वयासक-
म् । क्षारं चित्रकहिङ्गम्लवेतसं देव-
दारु च ॥ १४५ ॥ चूर्णीकृत्य पलां-
शानि लेहयेन्मधुसर्पिषा । चूर्ण पा-
णितलं पञ्च कासानेतद्रचपोहति १४६

जीवन्ती, मुलैठी, पाठ, वगलोचन, त्रिफला,
कचूर, नागरमोथा, इलायची, पीपल, दाख, कटेरी,
वडी कटेरी, बहेडा, सारिवा, पोहकरमूल, काकडा-
शिगी, रसौत, पुनर्नवा, लोहेकी भरम, त्रायमाण,
अजवायन, भारगी, मुँईआमला, ऋद्धि, वायविडग,
धमासा, जवाखार, चीता, हींग, अम्लवेत और
देवदारु प्रत्येक औषधि चार चार तोले लेकर चूर्ण
करलेवे । इसमें गहद और घी मिलाकर प्रतिदिन
एकतोला प्रमाण खाय तो यह चूर्ण पांचोंप्रकारकी
खाँसीको दूर करता है ॥ १४३-१४६ ॥

पद्मकादिचूर्ण ।

पद्मकं त्रिफलां व्योषं विडङ्गं सुरदा-
रु च । चूर्णीकृत्य पलांशानि लेहये-
न्मधुसर्पिषा ॥ १४७ ॥ एतैश्चूर्णैः समैः
सर्वैः पृथक् क्षौद्रं घृतं सिताम् । लि-
ह्याल्लिहं विपच्येतत् सर्वकासहरं
परम् ॥ १४८ ॥

पद्माख, त्रिफला, त्रिकुटा, वायविडग और देव-
दारु प्रत्येक औषधि चार २ तोले लेकर चूर्ण बना
लेवे । फिर सब चूर्णके समान शहद और घी अलग
अलग लेकर एकत्र मिला देवे । इसको चाटनेसे
सर्वप्रकारकी खाँसी नष्ट होती है ॥ १४७ ॥ १४८ ॥

सिंहामृतघृत ।

सर्पिर्गुहूचीवृषकण्टकारी काथेन क-
ल्केन च सिद्धमेतत् । पेयं पुराणञ्चर-
कासशूलश्वासाग्निमान्द्यग्रहणीगदेषु
॥ १४९ ॥

गिलोय, अड्डसा और कटेरी इनके काथ और
कल्केम घृतको सिद्ध करो। यह घृत-जीर्णञ्चर, खाँसी,
शूल, श्वास, मन्दाग्नि और सग्रहणीको दूर करता
है ॥ १४९ ॥

कण्टकारिवृत ।

घृतं रास्ना वला पथ्या श्वदंष्ट्रा कल्क-
पाचितम् । कण्टकारिरसे सर्पिः पञ्च-
कासनिपूदनम् ॥ १५० ॥

रसायन, खरैटी, हरड और गोखुरु इनके कल्क
और कटेरीके रसमें घृतको पकावे । यह घृत पांचों-
प्रकारकी खाँसीको दूर करता है ॥ १५० ॥

द्वितीयकण्टकारिवृत ।

समूलपत्रशाखायाः कण्टकार्यास्तुलां
शुभाम् । क्षुण्णां पचेज्जलद्रोणे चतु-
र्भागावशेषिते ॥ १५१ ॥ मिश्रिते
तत्कषायेऽस्मिन् घृतप्रस्थं विपाचयेत् ।
कल्कान्विल्वप्रमाणांश्च तत्रेमानि प्र-
दापयेत् ॥ १५२ ॥ पिप्पली पिप्पली-
मूलं चित्रको हस्तिपिप्पली । सौव-
र्चलं यवक्षारो रास्नात्रिकटुकं वचा ॥
॥ १५३ ॥ एतत्सर्पिः प्रशंसन्ति पञ्च-
कासनिवारणम् । श्वासं कासं प्रति-
श्यायं श्लेष्मकासञ्च नाशयेत् ॥ १५४ ॥
निश्ग्धिकाघृतमिदं न व्याधिरति-
वर्त्तते । जातशूलोऽपि संवृद्धो देव-
सेनाभिवालुराः ॥ १५५ ॥

सौ पल कटेरीके पंचागको कूटकर एकद्राणं जल
में पकावे । जब पकते पकते चौथाई भाग जल शेष
रहनाय तब उतारकर छान लेवे । फिर इस काथमें
गौका घी १ प्रस्थ, पीपल, पीपलामूल, चीता,
गजपीपल, कालानमक, जवाखार, रायसन, त्रिकुटा
और वच प्रत्येकका कल्क चार २ तोले डालकर
उत्तम विधिसे घृतको पकावे । यह घृत-पांचोंप्रका-
रकी खाँसी, श्वास, प्रतिश्याय और विशेष कर
कफकी खाँसीको दूर करता है । और बढीहुई
व्याधिको तथा दुःसाध्य शूलरोगको इस प्रकार नष्ट
करता है जैसे देवसैन्य असुरोका नाश करता है
॥ १५१-१५५ ॥

तृतीयकण्टकारिवृत ।

कण्टकार्यास्तुलां क्षुण्णां कृत्वा द्रो-
णेऽम्भसि पचेत् । तेनाटकेन काथेन

घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ १५६ ॥ रास्त्रा
दुःस्पर्शषड्ग्रन्थापिप्पलीद्वयचित्रकैः ।
सौवर्चलं यवक्षारं कृष्णामूलैश्च तं ज-
येत् ॥ १५७ ॥ कासश्वासकफष्ठीव
हिधमारोचकपीनसान् ॥ १५८ ॥

सौ पल कटेरीके पंचांगको लेकर कूटकर एक
द्रोण जलमें पकावे । जब पकते २ जल एक आढक
रहजाय तब उतारकर छान लेवे । फिर इस काथमे
१ प्रस्थ घी, तथा रसायन, जवासा, वच, पीपल,
गजपीपल, चीता, कालानमक, जवाखार और पीपला-
मूल, प्रत्येकका कल्क चार चार तोले डालकर
घृतको सिद्ध करे । यह घृत खाँसी, श्वास, 'कफका
थूकना, हिध्म, अरुचि और पीनसको दूर करता है
॥ १५६ ॥ १५७ ॥ १५८ ॥

बृहद्वासकादिघृत ।

समूलपत्रशाखन्तु श्लक्ष्णं कृत्वाटरूष-
कम् । तस्य कुर्यात्पलशतं द्वौ प्रस्थौ
पञ्चमूलयोः ॥ १५९ ॥ हरीतकीविभी-
तकयोर्वल्कलं कुडवद्रयम् । दद्यादा-
मलकानाञ्च कुडवञ्च त्रिभागशः १६०
निःक्राथ्य सलिलद्रोणे चतुर्भागाव-
शोषिते । भेषजानि सुषिष्टानि तत्रे-
मानि प्रदापयेत् ॥ १६१ ॥ द्वे मेदे द्वे ह-
रिद्वे च जीवकर्षभकावुभौ । काकोली
क्षीरकाकोली चन्दनं मधुकं तथा ॥
॥ १६२ ॥ मुद्गपर्णी माषपर्णी पयस्या
चापि पिप्पली । मरिचं चाश्वगन्धा च
सशुण्ठी काकनासिका ॥ १६३ ॥ सू-
क्ष्मैला शतपुष्पा च शृङ्गीका च शता-
वरी । एतैः सर्पिर्विपक्तव्यं गवां क्षीरे
चतुर्गुणे ॥ १६४ ॥ सर्वकासापहं सर्पिः
क्षीणक्षतसुखावहम् । हिक्काश्वासहर-
श्चैव स्वररक्तप्रसादनम् ॥ १६५ ॥

मूल, पत्र और शाखाओं समेत अङ्गुला १०० पल,
दशमूलकी औषधियें २ प्रस्थ, हरड और वहेडेकी
छाल दो कुडव और आमले ३ कुडव लेवे । सबको

एकद्रोण जलमें पकावे । जब पकते पकते चौथाई भाग
जल शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे । फिर इस
काथमे मेदा, महामेदा, हल्दी, दारुहल्दी, जीवक,
कृपभक, काकोली, क्षीरकाकोली, चन्दन, मुलेठी,
मुगवन, मपवन, दुधी, पीपल, मिरच, असगन्ध,
सोठ, काकनासा (केआठोडी), छोटी उला-
यची, सौंफ, दाख और शतावर इनका फल्क डाल-
कर गौंके चौगुने दूधमें घृतको सिद्ध करे । यह घृत
सब प्रकारकी खाँसीको हरनेवाला, क्षतक्षीण मनु-
ष्योंको सुप्त देनेवाला, हिचकी और श्वासको दूर
करनेवाला तथा स्वर और रुधिरको प्रसन्न करनेवाला
है ॥ १५९-१६५ ॥

कण्टकारीलेह ।

कण्टकार्यास्तुलां सम्यग् जलद्रोणे
विपाचयेत् । पादावशेषिते तस्मिन्
कल्कानेतान् प्रदापयेत् ॥ १६६ ॥
दुरालभा छिन्नरुहा भार्ङ्गी कर्कटका-
ह्वया । रास्त्रा मुस्तं शटी चव्यं चि-
त्रकं त्र्यूपणं तथा ॥ १६७ ॥ पलांशा-
नि पलान्यत्र शर्करायास्तु विंशतिः ।
घृततैलपलान्यस्मिन्नष्टावष्टौ प्रदाप-
येत् ॥ १६८ ॥ कल्कं कृत्वा घृते शीते
मधुनोऽष्टपलं क्षिपेत् । चतुःपलं पि-
प्पलीनां तुगाक्षीर्याश्चतुःपलम् ।
एष लेहः शमयति पञ्चकासांश्चिरो-
त्थितान् ॥ १६९ ॥

कटेरीके पंचांगको पांचसेर (अस्सीके सेरसे) लेकर
एकद्रोण जलेमें पकावे । जब पकते पकते चौथाई
भाग जल शेष रहजाय तब उतार कर छान लेवे ।
फिर इस काथमे धमासा, गिलोय, भारंगी, काकडा
शिंगी, रायसन, नागरमोथा, कचूर, चव्य, चीता,
त्रिकुटा प्रत्येकका चूर्ण चार चार तोले, सफेद बूरा
२० पल, घी और तेल आठ आठ पल सबको एकत्र
मिलाकर पकावे । जब पकते २ लेहके समान होजाय
तब शीबल होनेपर शहद ८ पल, पीपल ४ पल और
वंशलोचन ४ पल डालकर खूब करछीसे चला देवे ।
यह लेह पांचोंप्रकारकी पुरानी खाँसीको दूर करता
है ॥ १६६ ॥ १६७ ॥ १६८ ॥ १६९ ॥

० व्याघ्रोहरीतकी ।

समूलपुष्पच्छदकण्टकार्यास्तुलां जलद्रोणपरिप्लुताञ्च । हरितकीनाञ्च शतं निदध्यादेतत्तु पक्त्वा चरणावशेषम् ॥ १७० ॥ गुडस्य दत्त्वा शतमेतदशौ विपक्वमुत्तार्य ततः सुशीते । कटुत्रिकञ्च त्रिपलप्रमाणं पलानि षट्पुष्परसस्य चापि ॥ १७१ ॥ क्षिपेच्चतुर्जातपलं यथाग्निप्रयुज्यमानो विधिनावलेहः । वातात्मकं पित्तकफोद्भवञ्च द्विदोषकासानपि च त्रिदोषान् ॥ १७२ ॥ क्षतोद्भवं च क्षयजञ्च हन्यात्तत्पीनसश्वासमुरःक्षतञ्च । यक्ष्माणमेकादशमुग्ररूपं भृगूपदिष्टं हि रसायनं स्यात् ॥ १७३ ॥

मूल, फूल, पत्र और शाखासहित कटेरी १०० पल और हरड १०० पल लेकर एक द्रोण जलमे डालकर पकावे । जब चौथाई भाग शेष रह जाय तब उतार लेवे । फिर गुड १०० पल डालकर पकावे । जब वह अच्छे प्रकार पक जाय तब नीचे उतारकर शीतल होनेपर उसमे त्रिकुट्टिका चूर्ण १२ तोले, शहद २४ तोले और चातुर्जातकका चूर्ण ४ तोले मिलादेवे । इस अवलेहको अग्निका बलावल विचारकर सेवन करे तो वातज, पित्तज, कफज, द्रुन्दज और त्रिदोषज खाँसी, क्षतकी खाँसी, क्षयकी खाँसी, पीनस, श्वास, उरःक्षत और ग्यारह लक्षणोंयुक्त उपराजयक्ष्मा रोग दूर होता है । यह उत्तम रसायन भृगुजाने प्रकाशित की है ॥ १७०--१७३ ॥

अगस्त्यहरीतकी ।

दशमूली स्वयंमुक्ता शङ्खपुष्पी शटी बला । हस्तिपिप्पल्यपामार्गपिपलीमूलचित्रकान् ॥ १७४ ॥ भाङ्गी पुष्करमूलञ्च द्विपलांशं यवाढकम् । हरीतकीशतञ्चैकं जले पञ्चाढके पचेत् ॥ १७५ ॥ यवैः स्वित्तैः कषायन्तु पूतं तच्चाभयाशतम् । पचेद्दुडतुलां दत्त्वा कुडवञ्च पृथग् घृतम् ॥

॥ १७६ ॥ तैलात्पिप्पलिचूर्णाञ्च सिद्धे शीते च माक्षिकात् । कुडवं पलमानं च चातुर्जातविचूर्णितम् ॥ १७७ ॥ लिह्याद्दे चाभये नित्यमतः खादेद्रसायनम् । तद्वलीपलितं हन्याद्दर्णा युर्बलवर्धनम् ॥ १७८ ॥ पञ्चकासक्षयश्वासान् हिक्काः सविषमज्वरान् । हन्याद्गुल्मग्रहण्यशौहद्रोगारुचिपीनसान् ॥ १७९ ॥ अगस्त्यविहितं धन्यमिदं श्रेष्ठं रसायनम् । संख्यापलानां शतशो मतागस्त्यहरीतकी ॥ १८० ॥

दशमूल, कौलके बीज, शंखाहुली, कचर, खिरैंटी, गजपीपल, चिरचिटा, पीपलामूल, चीता, भारंगी और पोहकरमूल ये प्रत्येक औषधि आठ २ तोले लेकर ५ आढक जलमे पकावे । फिर एक आढक जौ और हरड १०० इनको महीन कपडेकी पोटरलीमें बांधकर पकते हुए जलमे डालदेवे । जब पककर चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे और हरडोको निकालकर उनकी गुठली निकालडाले । फिर उन हरडोंको घी और तेलमे भूनलेवे, पश्चात् पूर्वाक्त काथमे १०० पल गुड, ये भुनी हुई हरडे २००, १६ तोले घी, १६ तोले तेल और १६ तोले पीपलका चूर्ण डालकर पकावे । जब सिद्ध होकर शीतल होजाय तब १६ तोले शहद और चातुर्जातका चूर्ण चार तोले मिलादेवे । प्रतिदिन इससेसे दो हरड खाय । यह रसायन-वलीपलित रोगको नष्ट करती है, वर्ण, आयु और बलको बढ़ाती है तथा पांचोप्रकारकी खाँसी, क्षय, श्वास, हिचकी, विपमज्वर, गुल्म, संग्रहणी, ववासीर, हृदयरोग, अरुचि और पीनसको दूर करती है । वह श्रेष्ठ रसायन अगस्त्यकृपिने निर्माण की है ॥ १७४--१८० ॥

यथोद्दिष्टगुणं कुर्वन् पित्तञ्च कुरुते यदि । तथा सायं गुडो योज्य एष एवालपमात्रया ॥ १८१ ॥

यहां सौ पल हरड लेनी चाहिए । यदि उपरोक्त गुणोंको करता हुआ यह अवलेह पित्तको करे तो संख्याके समय इस गुडकी अल्पमात्रा प्रयोग करनी चाहिए ॥ १८१ ॥

आर्द्रद्रव्यद्रवद्रव्यपलैरष्टाभिरेव च ।
शुष्कद्रव्यचतुष्केण कुडवः समुदा-
हतः ॥ १८२ ॥

आर्द्रद्रव्य अर्थात् गीले पदार्थ और पतले पदार्थोंका
८ पलका एक कुडव होता है और सूखे पदार्थोंका
४ पलका एक कुडव होता है ॥ १८२ ॥

यवगोधूमभाषाश्च तिलाश्चापि नवा-
हिताः । पुराणा विरसा रूक्षा न तद-
र्थकराः स्मृताः ॥ १८३ ॥ हरीत-
क्योऽपि नवा ग्राह्याः ॥

जौ, गेहूँ, उडद और तिल ये नवीन उत्तम होते हैं
ये पुराने, नीरस, रूखे और उस गुणको नहीं करते हैं
इस कारण ये श्रेष्ठ नहीं हैं । यहां हरडभी नवीन
लेनी चाहिये ॥ १८३ ॥

बृहद्गस्त्यहरीतकी ।

अभयानां शतं दारु शङ्खपुष्पी मधूलि-
काम् । स्वयंगुप्तां पञ्चमूल्यौ द्वे शटीं पु-
ष्कराह्वयम् ॥ १८४ ॥ पञ्चकोलबला
हस्तिपिप्पली साश्मभेदकान् । भाङ्गीं
पुनर्नवाश्चैव द्विपलांशां यवाढकम्
॥ १८५ ॥ पचेत्पञ्चाढके तोये पादशेषं
तथोद्धरेत् । विनीय चाभयां तत्र पुन-
श्चाग्नावधिश्रयेत् ॥ १८६ ॥ दत्त्वा गुड-
तुलां तत्र कषाये कुडवे पृथक् । तैलात्
पिप्पलिचूर्णाच्च घृतात् क्षौद्रान्तथैव च
॥ १८७ ॥ पक्वा तल्लेहवत्स्थाप्यं घृत-
भाण्डे विधानतः । पथ्यभुङ्क्ते नियताहा-
रः खादेद्द्वे द्वे हरीतकी ॥ १८८ ॥ हन्याच्च
ग्रहणीगुल्मपाण्डूर्तिविषमज्वरान्वायक्ष्मा-
र्शःप्लीहवैस्वय्यश्वासकासारुचिक्षया-
न् ॥ १८९ ॥ बलवर्णाग्निजननं व-
लीपलितनाशनम् । रसायनमिदं सि-
द्धमगस्त्यविहितं मतम् ॥ १९० ॥

हरड १००, देवगरु शखाहुली, मूर्वा, कौलके
बीज, दशमूलकी औपधिये, कचूर, पोहकरमूल, पंच-
कोल, खिरटी, गजपीपल, पापाणभेद, भारंगी और
पुनर्नवा ये प्रत्येक दो २ पल और जौ एक आढक,

इन सबको पांच आढक जलमे और हरडोंको कपडमे
बांध काथमे डालकर पकावे जब पकते २ चौथाई
भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे । फिर
इस काथमे पूर्वोक्त हरडोंकी गुठली निकालकर उस
हरडे तथा गुड १००पल, तेल १६तोले, पांपलका चूर्ण
१६तोले और घी १६तोले डालकर उत्तम विधिसे सिद्ध
करे । जब पककर अवलेहके समान हो जाय तब उतार
कर शीतल होनेपर १६तोले गहड डालकर घीके चिक-
ने वासनमे भरकर रखदेवे । फिर प्रतिदिन इसमेसे
दो हरड खाय और इनपर पथ्य भोजन करे तो यह
संग्रहणी, गुल्म, पाण्डुरोग, विषमज्वर, राजयक्ष्मा,
ववासीग, प्लीहा, रवरहीनता, श्वास, खोंसी, अस्तीच
और क्षयको नष्ट करती है । बल, वर्ण और अग्निको
बढानेवाली, तथा वलीपलितनाशक है । यह सिद्ध
रसायन अगस्त्य ऋषिने निर्माण की है ॥
१८४-१९० ॥

० वसिष्ठहरीतकी ।

यवाढके सप्तजलाढकानि हरीतकी-
नान्तु शतं गुरुणाम् । लौहे कटाहे
समाधिश्रयित्वा द्रव्याणि चैतानि
समान्यधीत ॥ १९१ ॥ दन्त्यश्वगन्धा
चिरविल्वमूलं भल्लातकं बिल्वफलं
नतश्च । उभे हरिद्रे गजपिप्पली च प-
त्राणि मूलानि च चित्रकस्य ॥ १९२ ॥
पिप्पल्यपामार्गमथात्मगुप्ता सर्वाणि
कुर्यात्पलसम्मितानि । एकत्र सर्वा-
णि भिषग्विदध्याद् द्विपञ्चमूलीं च
यवप्रमाणाम् ॥ १९३ ॥ मृदूनि सुस्वि-
न्नयवान् विदित्वा शनैः प्रयत्नादव-
तारयेच्च । विस्त्राव्य तेनैव जलेन सा-
र्द्धं पचेत्पुराणस्य शतं गुडस्य ॥ १९४ ॥
भूयो गुरुणामपि तत्र दद्याद्धरीतकी-
नाश्च सहस्रमन्यत् । प्रस्थं पुराणस्य
घृतस्य दद्यान्नवस्य तैलस्य च ताव-
देव ॥ १९५ ॥ शीते मधुस्रोहसमन्तु
दद्यात् पलानि चाष्टावथ पिप्पलीना-
म् । सा कल्कमिश्रा त्वथ सेव्यमाना

सर्वाञ्ज्वरान्नाशयतीह मासात् १९६॥
 मासद्वयेनैव च नेत्ररोगान्निहन्त्यपूर्वा-
 श्च करोति दृष्टिम् । कुष्ठानि मासत्र-
 यतो निहन्ति प्रभिन्नकर्णांगुलिनासि-
 कानि ॥ १९७ ॥ भगन्दरं श्लीपद्वा-
 तगुल्मं श्वासं तथा मासचतुष्टयेन ।
 संभक्षिता पञ्चभिरेव मासः करोति
 केशान्त्रमराजनाभान् ॥ १९८ ॥ षड्-
 भिस्तु मासैः खलु सापि कुर्व्यात् के-
 शान् सुशीतान् घनकुञ्चिताग्रान् ।
 सहस्रपथ्यामथ चोपयुञ्ज्य बलं भवेदु-
 त्तमकुञ्जरस्य ॥ १९९ ॥ स्वरं मयूरस्य
 हयस्य वेगं शरच्छशाङ्कस्य पराश्व
 कान्तिम् । सौभाग्यमेधास्मृतिसत्व-
 युक्तो बलान्वितः पद्मदलायताक्षः ॥
 ॥ २०० ॥ जीवेत्समानाश्च सहस्रम-
 द्र्यं प्रयोगकालादिति सत्यवाक्यम् ।
 समीक्ष्य कल्पांस्तु चकार योगं
 हिताय लोकस्य मुनिर्वसिष्ठः ॥ २०१ ॥

बड़ी बड़ी सौ हरडे और जौ एक आठक परिमाण लेकर सात आठक जलमे एक लोहेके कढावमे डाल कर पकावे तथा दन्ती, असगन्ध, करजीकी जड, मिलावे, बेलगिरी, तगर, हल्दी, दासहल्दी, गजपीपल, चीतेकी जड और पत्ते, पीपल, चिरचिटा और कौँछके बीज, ये प्रत्येक औषधि चार २ तोले और दशमूलकी औषधि एक आठक परिमाण डालकर पकावे । जब पकते २ जौ नरम होकर फूलजाय तब धीरेसे छतार कर छानलेवे । फिर इस काथमे ५० पल गुड और वेही इस काथकी निकाली हुई सौ हरडे तथा एक हजार कच्चीहरडे और पुराना घी १ प्रस्थ और नूतन तेल १ प्रस्थ डालकर पकावे, जब पककर शीतल होजाय तब शहद १ प्रस्थ और पीपलका चूर्ण ८ पल, मिला देवे । इसको सेवन करनेसे एक महीनेमे सर्वप्रकारके ज्वर दूर हांते है । दूसरे महीनेमे सर्वप्रकारके नेत्ररोग दूर होकर अपूर्व दृष्टि होजाती है, और तीसरे महीने में कोढ़ नष्ट होजाता है, तथा कटीहुई अंगुलि और नासिका ठीक होजाती है । चाये महीनेमे भगन्दर, श्लीपद, वातगुल्म और श्वास दूर होजाता है। पांचवे

महीनेमे बाल भौंरेके समान तथा अंजनक समान काले होजाते है । छठे महीनेमे बाल सुन्दर, सघन और कुचित होजाते है। इन हजार हरडोंको सेवन करनेसे उत्तम हाथीके समान बल उत्पन्न होता है। मोरके समान स्वर, घोडेके समान वेग और शरदक्रतुके चन्द्रमाके समान कांति होजाती है । इसको सेवन करनेवाला मनुष्य सौभाग्य, मेधा, स्मरणशक्ति, पराक्रम और बलयुक्त होता है, तथा नेत्र कमलदलके समान होजाते है । वह मनुष्य निर्विकार, नवयौवनयुक्त हजारवर्ष पर्यन्त जीता रहता है । इस योगका संसारके हितके लिये वसिष्ठऋषिने बहुतसे कल्कोको विचार कर निर्माण किया है ॥ १९१—१०१ ॥

कुलित्थ गुड ।

कुलित्थानां पलशतं दशमूलपलं त-
 था । शतं ब्राह्मणयष्ट्याश्च चतुर्गु-
 णजले शृतम् ॥ २०२ ॥ पादावशेषे
 पूते च गुडस्यार्धतुलां पचेत् । पाकं
 ज्ञात्वावतायैव सुशीते श्लक्ष्णचूर्णित
 म् ॥ २०३ ॥ षट्पलश्च तुगाक्षीर्याः
 पिप्पल्या द्विपलं तथा । कुडवं मधुनो
 दद्यात्स्थापयेत्स्निग्धभाजने ॥ २०४ ॥
 खादेदग्निबलापेक्षी नाशयेदचिराद-
 यम् । यक्षमाणं पीनसं कासं श्वासं
 जीर्णमजीर्णकम् ॥ २०५ ॥ जीर्णज्वरं
 पाण्डुरोगं हृद्रोगं श्लेष्ममारुतम् ।
 कुलित्थगुड इत्युक्तः सर्वोपद्रवना-
 शनः ॥ २०६ ॥

कुलथी १०० पल, दशमूल १०० पल और भारंग १०० पल लेकर चौगुने जलमे पकावे । जब पकते २ चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे। फिर इस काथमे ५० पल गुड डालकर पकावे । जब अच्छे प्रकारसे पकजाय तब शीतल होनेपर वगलोचन २४ तोले, पीपल ८ तोले और शहद १६ तोले डालकर एक उत्तम चिकने वासनमे भरकर रखदेवे । अग्निका बलावल विचार कर इस-मेसे भक्षण करो। यह बहुत पुराने राजयक्ष्मा, पीनस, खांसी, श्वास, जीर्ण, अजीर्ण, जीर्णज्वर, पाण्डुरोग, हृदयरोग और कफवातको नष्ट करता है । यह कुलि-

त्थगुड—सर्वप्रकारके उपद्रवोको नष्ट करनेवाला है
॥ २०२ ॥ २०३ ॥ २०४ ॥ २०५ ॥ २०६ ॥

द्वितीयकुलित्थगुड ।

चतुष्पलं मूलकशुण्ठिकस्य तथैव शु-
द्धस्य कुलित्थकस्य । तुल्यं प्रदद्या-
दशमूलतश्च द्रोणेऽम्भसिः सर्वमिदं
पचेत् ॥ २०७ ॥ दत्त्वा हविस्तैलप-
लाष्टकश्च गुडस्य शुद्धस्य तुलां तथै-
व । तावत्पचेद्यावादिदं समस्तं सङ्घ-
द्य दार्व्यां गुडपाकमेति ॥ २०८ ॥
चूर्णीकृतैर्जीरकचव्यशृङ्गीभाङ्गीवि-
सौगन्धिककट्फलैश्च । मुस्तायवा-
नीशठिपुष्करैश्च सव्योषकैरर्धपलप्र-
माणैः ॥ २०९ ॥ सार्धं क्षिपेन्माक्षि-
कप्रस्थमात्रं दद्यात्सुशतिं त्वथ व-
ह्नयेक्षाम् । मात्रां ततो लेहवदा-
लिहेच्च पथ्याशनश्च द्वययोगकाले ॥
॥ २१० ॥ कफोद्धवा ये च विकार-
जाताः सश्वासकासा हृदयक्षतश्च ।
हृत्पार्श्वशूलज्वरछादितृष्णास्वरक्षया-
रोचकवह्निसादाः ॥ ते नाशमायांत्यु-
पयोगतश्च कुलित्थसंज्ञस्य गुडस्य
शीघ्रम् ॥ २११ ॥

सूखी मूली १६ तोले, सोठ १६ तोले, उत्तमकुलथी
१६ तोले और दशमूलकी औपधिये १६ तोले लेकर
एक द्रोणी जलमें पकावे । जब पकते २ जल चौथाई
भाग शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे । फिर इस
काथमें घी और तेल आठ पल और शुद्ध गुड १००
पल डालकर पकावाजब पकते २ करछोसे लगने लग
जाय और गाढा होजाय तब जीरा, चव्य, काकड़ा-
शिगी, भारगी, दालचीनी, इलायची, तेजपात, काय-
फल, नागरमोथा, अजवायन, कचूर, पोहकरमूल,
सोठ, मिरच और पीपल प्रत्येकका चूर्ण दो २ तोले
एवं जीतल होनेपर आधा प्रस्थ शहद डालकर खूब
मिलादेवे । अधिका बलाबल विचारकर दोनो समय

इसको चांटे और इसपर पथ्य भोजन करो। यह कुलि-
त्थगुड—सब प्रकारके कफरोग, श्वास, खाँसी, हृदय-
क्षत, हृदयरोग, पार्श्वशूल, ज्वर, वमन, तृषा, स्वर-
हीनता, अरुचि और मशामिको दूर करता है २०७॥
॥ २०८ ॥ २०९ ॥ २१० ॥ २११ ॥

खादिरवासकपल्लवछायाशुष्कश्च सं-
चूर्ण्य । त्रिभागपिप्पलीयुक्तं कटुत्रयं
मधुनावलिद्यात् ॥ २१२ ॥

खैरसार १ भाग, छायामें सुखाये हुए अहूसेके पत्ते
२ भाग, और त्रिकुटा ३ भाग, इतका एकत्र चूर्ण
करके शहद मिलाकर सेवन करे तो सर्व प्रकारकी
खाँसी दूर होती है ॥ २१२ ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां कासरोगाधि-
कार संपूर्ण ॥ १२ ॥

अथ हिक्काधिकार ।

विदाहिगुरुविष्टम्भिरुक्षाभिष्यन्दि-
भोजनैः । शीतपानाशनस्नानरजोधू-
मातपानिलैः ॥ १ ॥ व्यायामकर्म-
भाराध्ववेगाघातापतर्पणैः हिक्का श्वा-
सश्च कासश्च नृणां समुपजायते ॥ २ ॥

वाहकारक, भारी, विष्टम्भकारी, रुखे और अभि-
ष्यन्दजनक भोजन करनेसे, शीतल जलके पीनेसे
शीतल जलमें स्नान करनेसे, धूल रसों, धूप और
अत्यन्त पवनके सेवन करनेसे, दंड कसरत आदि प-
रिश्रम करनेसे, घोड़को ढोनेसे बहुत मार्गके चलनेसे
मलमूत्रादिके वेगोंको रोकनेसे और उपवास व्रतादि
के करनेसे मनुष्योंके हिक्का, श्वास और खाँसी उत्पन्न
होती है ॥ १ ॥ २ ॥

संप्राप्ति ।

मुहुर्मुहुर्वायुरुदेति सस्वनो यकृत्प्ली-
हांत्राणि सुखादिवाक्षिपत् । सघो-
षवानाशु हिनस्ति यस्मात्ततस्तु हि-
क्केत्यभिधीयते बुधैः ॥ ३ ॥

प्राणवायु दूषित होकर उदान वायुसे मिलकर जब मुखसे बाहर निकलती है तब मनुष्य बार बार हिक् २ शब्द करता है । और वह वायु यकृत प्रीहा-दिको मुखके बाहर खींचतीसी मालूम होती है और मुखमें आनकर घोर शब्द करती है तब इसको बुद्धिमान् हिक्का (हिचकी) कहते हैं । यह शीघ्र ही प्राणोंका नाश करनेवाली है ॥ ३ ॥

प्राणोदकान्नवाहीनि स्रोतांसि विकृतानिलः । हिक्कां करोति संरुध्य तासां लिङ्गं पृथक्शृणु ॥ ४ ॥

दुष्टवायुसे प्राण, जल और अन्नके बहनेवाले स्रोत रुककर हिक्काको उत्पन्न करे है । अब उसके अलग अलग लक्षण कहते हैं उनको सुनो ॥ ४ ॥

अन्नजां यमलां क्षुद्रां गम्भीरां महतीं तथा । वायुः कफेनानुगतः पञ्च हिक्काः करोति च ॥ ५ ॥

कफसे प्राण वायु मिलकर अन्नजा, यमला, क्षुद्र, गम्भीरा और महती ऐसे पांचप्रकारकी हिक्काको उत्पन्न करती है ॥ ५ ॥

पूर्वरूप ।

कण्ठोरसो गुरुत्वञ्च वदनस्य कषायता । हिक्कानां पूर्वरूपाणि कुक्षेराटोप एव च ॥ ६ ॥

कण्ठ और छातीमें भारीपन, मुखमें कपैलापन और कोखमें गुडगुडाहट शब्दका होना, ये लक्षण हिक्काके होनेसे पहिले होते हैं ॥ ६ ॥

अन्नजाके लक्षण ।

पानान्नैरतिसंयुक्तैः सहसा पीडितोऽनिलः । हिक्कयत्यूर्ध्वगो भूत्वा तां विद्यादन्नजां भिषक् ॥ ७ ॥

अत्यन्त अन्नपानके करनेसे एक साथ प्राणवायु पीडित होकर ऊपरको जाकर अन्नजा हिक्काको उत्पन्न करती है ॥ ७ ॥

यमलाके लक्षण ।

चिरेण यमलैर्वैर्गैर्या हिक्का संप्रवर्तते । कम्पयन्ती शिरो ग्रीवां यमलान्तां विनिर्दिशेत् ॥ ८ ॥

जो बहुत देरमें ठहर ठहर कर दो २ हिक्का आवै और शिर तथा ग्रीवाको कँपावै उसको यमला कहते हैं ॥ ८ ॥

क्षुद्राके लक्षण ।

विकृष्टकालैर्या वैर्गैर्मन्दैः समभिवर्तते । क्षुद्रिका नाम सा हिक्का जन्तु-मूलात्प्रधावति ॥ ९ ॥

जो हिक्का जन्तुके (कन्धेके जोड़के) समीपसे उत्पन्न होकर मन्द वेगसे जल्दी जल्दी चले उसको क्षुद्रा कहते हैं ॥ ९ ॥

गम्भीराके लक्षण ।

नाभिप्रवृत्ता या हिक्का घोरा गम्भीरनादिनी । अनेकोपद्रववती गम्भीरा नाम सा स्मृता ॥ १० ॥

जो हिक्का नाभिके समीपसे उत्पन्न होकर घोर गम्भीर शब्द करे और जिसमें ज्वर तृपादि अनेक उपद्रव हो उसको गम्भीरा कहते हैं ॥ १० ॥

महाहिक्काके लक्षण ।

मर्मण्यपीडयन्तीव सततं या प्रवर्तते । महाहिक्केति सा ज्ञेया सर्वगात्रप्रकम्पिनी ॥ ११ ॥

जो हिक्का मर्म स्थानोंको पीडित करती हुई और सम्पूर्ण अंगोंको कम्पाती हुई निरन्तर चले उसको महा हिक्का कहते हैं ॥ ११ ॥

असाध्य लक्षण ।

आयम्यते हिक्कतो यस्य देहो दृष्टिश्चोर्ध्वमभ्राम्यते यस्य नित्यम् । क्षीणोऽन्नद्विट् क्षीति यश्चातिमात्रं तौ द्वौ चांत्यौ वर्जयेद्विक्रमानौ ॥ १२ ॥

जिस मनुष्यका हिचकी लेते समय शरीर फैलजाय, दृष्टि ऊपरको चढ़जाय, भ्रम होजाय, तथा जो क्षीण होजाय, अन्नमें अरुचि हो और छीक बहुत आवै ऐसे यह दोनो हिक्कारोगी एवं गम्भीरा और महती हिक्कारोगी त्याज्य है अर्थात् इनकी चिकित्सा नहीं करना चाहिए ॥ १२ ॥

अतिसंचितदोषस्य भक्तद्वेषकृतस्य च । व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्ध-

स्यातिव्यवायिनः ॥ १३ ॥ आया-
साद्यासमुत्पन्ना हिक्का हन्त्याशु जी-
वितम् । यमिका या प्रलापार्ति-
मोहतृष्णासमन्विता ॥ १४ ॥

हिक्कारोगमे जो वातादि दोष अत्यन्त संचित हो
भोजनमे अरुचि, व्याधिसे शरीर क्षीण, वृद्ध और
अत्प्रन्त मैथुन करनेवाले और आयासादिसे मनुष्यको
हिक्का उत्पन्न होकर मार देती है । प्रलाप, बेचैनी,
मोह और तृषा इन लक्षणोंसे युक्त यामिका हिक्का
मनुष्यको मार देती है ॥ १३ ॥ १४ ॥

अक्षीणश्चाप्यदनिश्च स्थिरधात्विन्द्रि-
यश्च यः । तस्य साध्यितुं शक्या य-
मिका हन्त्यतोऽन्यथा ॥ १५ ॥

जो बलवान्, प्रसन्नचित्त हो, धातु और इन्द्रिये
जिसके यथास्थानमे स्थित हैं उसके यमिका हिचकी
साध्य है और जो इससे विपरीत हो तो असाध्य
है ॥ १५ ॥

आसां क्षुद्रात्रजा साध्या शेषाः
प्राणहरा मताः ॥ १६ ॥

इन पांच प्रकारकी हिक्काओंमे क्षुद्रा और
अत्रजा साध्य है और वातकी तीनों हिचकी प्राण-
नाशक है ॥ १६ ॥

यथाग्निरिक्षोः पवनानुवृद्धो वज्रं
यथा वा सुरराजमुक्तम् ॥ रोगास्तथैते
खलु दुर्निवाराः श्वासः सहिक्का च
विलम्बिका च ॥ १७ ॥

जिसप्रकार वायुसे वृद्धिको प्राप्त हुई ईखकी अग्नि
और जिस प्रकार इन्द्रके हाथसे छूटा हुआ वज्र दुर्नि-
वार है उसी प्रकार श्वास, हिक्का और विलम्बिका
यह रोग दुर्निवार है ॥ १७ ॥

चिकित्सा ।

प्राणावरोधतर्जनविस्मापनभयभाष-
कैश्च घोरैः । कथाप्रयोगैः शमयेद्वि-
क्कां घोरां मनोघातैः ॥ १८ ॥

प्राणायाम, अथवा प्राणपवनको रोकना, ताड़ना
करना, आश्चर्यजनक वार्ताओका कहना, भयभीत

करनेवाली वार्ताओका कहना, नानाप्रकारकी चित्र
विचित्र कथाओका कहना और घोर वनमे चोट
लगनेवाली वार्ताओका करना इनके द्वारा घोर हिक्का
ओको शमन करना चाहिये ॥ १८ ॥

हिक्कार्तस्य पयश्छागं हितं नागरसा-
धितम् । रसां पिबेत्फलिन्याश्च ला-
जसक्तून् ससैन्धवान् ॥ १९ ॥

बकरीके दूधमे सोठ डालकर औटावे, फिर उस
दूधको हिक्कारोगीको पान करावे तो हिचकी शांत
होजाती है । फूलप्रियंगुके रसमे खीलोके सत्तू और
सैधानमक मिलाकर पान करनेसे हिक्कारोग शांत
होता है ॥ १९ ॥

मधुकं मधुसंयुक्तं पिप्पली शर्करान्वि-
ता । नागरं गुडसंयुक्तं हिक्काघ्नं नाव-
नत्रयम् ॥ २० ॥

मुलैठीको गहदमे मिलाकर, अथवा पीपलको
चीनीमे मिलाकर किम्वा सोठको गुडमे मिलाकर
नास देनेसे हिक्कारोग शांत होता है ॥ २० ॥

स्तन्येन मक्षिकाविष्टा नस्यं वालक्त-
काम्बुना । योज्यं हिक्काभिभूताय
स्तन्यं वा चन्दनान्वितम् ॥ २१ ॥

मक्खीकी विष्टाको दूधमे पीसकर, अथवा लाख-
को जलमे पीसकर, किम्वा चन्दनको दूधमे पीसकर
नासदेनेसे हिक्कारोग शांत होता है ॥ २१ ॥

मधुसौवर्चलोपेतं मातुलुङ्गरसं पिबे-
त् । अप्यसाध्यां नयत्यस्तं हिक्कां
क्षौद्रावलेहनात् ॥ २२ ॥

शहद और कालानमक मिलाकर विजौरेका रस-
पान करे अथवा केवल शहदको ही चाटनेसे असाध्य
हिक्कारोगभी शमन होता है ॥ २२ ॥

सद्य एव महायोगः कासमूलभवं र-
जः । हिक्कार्तो मधुना लिह्याच्छुण्ठी-
धात्रीकणान्वितम् ॥ २३ ॥

काँसकी जड़को पीसकर शहदमे मिलाकर सेवन
करनेसे अथवा सोठ, अमले और पीपलका चूर्ण
शहदमे मिलाकर सेवन करनेसे हिचकी दूर होती
है ॥ २३ ॥

प्रवालत्रिफलाशंखचूर्णं मधुघृतप्लुतम् ।
पिप्पली गैरिकं चैति लेहो हिक्कानि-
वारणः ॥ २४ ॥

मूंगा, त्रिफला, शंखका चूर्ण, पीपल और गेरू
इनको एकत्र पीसकर शहदमे मिलाकर चाटे तो
हिचकी दूर होती है ॥ २४ ॥

कोलमज्जाअन्नं लाजा तित्ता काञ्चन-
गैरिकम् । कृष्णा धात्री सिता शुण्ठी
कासीसन्दधिनाम च ॥ २५ ॥ पा-
टल्याः सफलं पुष्पं कृष्णा खर्जूरमु-
स्तकम् । षडेते पादिका लेहा हिक्का-
घ्ना मधुसंयुताः ॥ २६ ॥

वेरकी गिरी, अंजन और खीले (१) कुटकी
कचनार और गेरू (२) पीपल, आमले, मिश्री
आर सोठ (३) कसीस और कैथ (४) पाटलके
फल और फूठ (५) पीपल, खजूर और नागर-
मोथा (६) इन छः योगोमेसे कोई एक योग लेकर
चूर्ण करके शहदमे मिलाकर सेवन करे तो अवश्य
हिचकी दूर होती है ॥ २५ ॥ २६ ॥

नेपाल्या गोविषाणाभ्यां कुष्ठसर्जर-
सस्य च । धूमं कुशस्य वासाज्यं पि-
त्रेद्विक्रकोपशान्तये ॥ २७ ॥

मनाशिल, काकडासिगी, कूठ, राल, कुगा और
अडूसा इनको एकत्र पीसकर घीमे मिलाकर चिलम-
मे रखकर घूम पान करे तो हिचकी बन्द होजाती
है ॥ २७ ॥

निर्दूमाङ्गारनिक्षिप्तश्लक्ष्णमाषरजो-
द्रवः । हिक्कापथ निहन्त्याशु धूमः
पीतो न संशयः ॥ २८ ॥

उडगेना वारीक चूर्ण लेकर धूमराहित अंगारोमें
डालकर धूमपान करे तो निःसन्देह हिचकी दूर
होजाती है ॥ २८ ॥

सुपूतिकीटाद्यं चूर्णम्

सुपूतिकीटं लशुनोग्रगन्धा हिंस्वन्वि-
तं चूर्णामिदं सुभावितम् । अजावि-

मूत्रेण च सप्तकृत्वा घ्राणानिषित्तं
विनिहन्ति हिक्काम् ॥ २९ ॥

पूतिकीट (कीटविशेष), लशुन, वच और हींग
इनको एकत्र पीसकर वकरीके मूत्रमे सातवार
भावना देकर नास देवे तो हिचकी दूर होती है २९॥

हरेणवोऽथ पिप्पलयः काथहिंसुसमा-
युतः । हिक्काप्रशमनः श्रेष्ठो धन्वन्त-
रिवचो यथा ॥ ३० ॥

रेणुका अथवा पीपलके काथमे हींग डालकर
पान करे तो हिचकी शमन होती है ॥ ३० ॥

कुकूलानलसंस्विन्न इक्षुवालयप्रसम्भ-
वः । रसः समाक्षिकः पीतो हिक्का-
माशु नियच्छति ॥ ३१ ॥

भुसकी अग्निमे इक्षुवालिफा (तृण विशेष) की
जडको जलेके द्वारा उसेकर रस निकालकर शहद
मिलाकर पान करे तो हिचकी दूर होजाती है ॥ ३१ ॥

नारीक्षीराद्यघृत ।

नारीक्षीरेण वा सिद्धं सर्पिर्मधुरकैर-
पि । नासानिषित्तं पीतं वा सद्यो
हिक्कां नियच्छति ॥ ३२ ॥

खीके दूध और मधुर औषधियोके द्वारा घीको
सिद्ध करके नासिकाके द्वारा नास लेवे अथवा पान
करे तो हिचकी दूर होजाती है ॥ ३२ ॥

यत्किञ्चित्कफवातघ्नमुष्णं वातानुलो-
मनम् । भेषजं पानमन्नं वा हिक्काश्वा-
सेषु तद्धितम् ॥ ३३ ॥

जो द्रव्य कफवात नाशक है, गरम और वातको
अनुलोमन करनेवाले है, वे औषधि अन्न और पान
हिक्का और श्वासेमे हितकारी है ॥ ३३ ॥

हिक्काश्वासे पिबेद्भाङ्गीं सविश्वामुष्ण-
वारिणा ॥ ३४ ॥ नागरं वा सिता
भाङ्गीं सौवर्चलसमान्विताम् ॥ ३५ ॥
अभयानागरकल्कं पौष्करयावशूक

मरिचकलंक वा । तोयनोष्णेन पिबे-
च्छासी हिक्का च तच्छान्त्यै ॥ ३६ ॥

हिक्का और श्वासमे भारंगी और सोठको पीसकर गरमजलके साथ पान करे अथवा सोठ, मिश्री, भारंगी और कालानमक इनको सेवन करे किम्वा हरड और सोठके कलक, अथवा पोहकरमूल, जवा-खार, और कालीमिरचके चूर्णको गरमजलके साथ पान करे ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

तृषितो दशमूलस्य क्वाथं वा देवदा-
रुजम् । मदिरां वा पिबेद्युक्त्या हिक्का-
श्वासनिपीडितः ॥ ३७ ॥

हिक्का और श्वासमे तृषा हो तो दशमूलका काथ या देवदारुका काथ किम्वा मदिराको युक्तिसे सेवन करे ॥ ३७ ॥

दशमूलाद्यं घृतम् ।

दशमूलरसे सर्पिर्दधिमण्डेन साध-
येत् । कृष्णासौवर्चलक्षारव्यस्थाहिं-
गुरोच्चकैः । कायस्थया च तत्पाना-
द्विक्काश्वासौ नियच्छति ॥ ३८ ॥

पीपल, कालानमक, जवाखार, हरड, हींग, लाल प्याज और आमले इनके कलकके द्वारा दशमूलके काथ और दहीके माडमे घृतको सिद्ध करे । यह घृत हिक्का और श्वासको दूर करता है ॥ ३८ ॥

वासाघृतं वाथ पिबेत्पिबेद्यूषणमेव-
वा । वातपित्तानुबन्धे तु गुडविश्वस-
मन्वितम् ॥ ३९ ॥

वासाघृतको अथवा त्रिकुटेके चूर्णको गुडमे मिला कर वातपैत्तिकाहिक्का रोगमे सेवन करे । अथवा सोठ को गुडमे मिलाकर सेवन करना चाहिये ॥ ३९ ॥

छागक्षीरं प्रयोक्तव्यं शृतं तोये चतुर्गु-
णे । श्वासघ्नं भेषजं यच्च तच्च कार्यं प्र-
यत्नतः ॥ ४० ॥

१ अजीर्णमे भी हिक्का होती हे उममें बोलिके साथ खटास-
ने गला भर आता हे या विग्रधान्न नेमके साथ गलेमे भर
आता हे उसकी चिक्रिसा पाचन औपधियोंसे करनी
चाहिए, उष्ण औपधियोंसे वह नहीं शात होती । (इष्ट
प्रत्ययोऽयम् दामरनाथस्य)

वकरीके दूधमे चौगुना जल डालकर पकावे जब
जल जल जाय तब इसको पीवे तथा जो औपधि
श्वासको दूर करती है उन सबको हिक्कारोगमें यत्नपू-
र्वक प्रयोग करना चाहिये ॥ ४० ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां
हिक्काधिकारः समाप्तः ॥

अथ श्वासरोगाधिकार ।

यैरेव कारणैर्हिक्का बहुभिः संप्रवर्तते ।
तैरेव कारणैः श्वासः सद्यो भवति दे-
हिनाम् ॥ १ ॥

जिन कारणोंसे हिक्कारोग उत्पन्न होता है उन्हीं
कारणोंसे तत्काल मनुष्योंके श्वासरोग भी उत्पन्न
होता है ॥ १ ॥

महोर्ध्वच्छिन्नतमकक्षुद्रभेदैस्तु पञ्चधा ।
भिद्यते समहाव्याधिः श्वास एको
विशेषतः ॥ २ ॥

महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास, छिन्नश्वास, तमकश्वास
और क्षुद्रश्वास इन भेदोंसे यह पांच प्रकारका है और
विशेषकर एक ही श्वास है ॥ २ ॥

पूर्वरूप ।

प्राग्रूपं तस्य हृत्पिडा शूलमाध्मान-
मेव च । आनाहो वक्त्रवैरस्यं शंखनि-
स्तोद एव च ॥ ३ ॥

जब श्वास उत्पन्न होनेको होता है तब उसेस कुछ
पहिले हृदयमे पीडा, शूल, पेटका फूलना, अफारा,
मुखमे विरसता और कनपटियोंमे तोडने सरीखी
पीडा होती है ॥ ३ ॥

यदा स्रोतांसि संरुध्य मारुतः कफ-
मूर्च्छितः । विश्वग्नजाति संक्रुद्धस्तदा
श्वासान् करोति सः ॥ ४ ॥

वायु जब कफके साथ मिलकर प्राण जल और
अन्नके वहनेवाले स्रोतोंको रोक देता है तब अपने
आप वायु कफसे रुककर चारो ओर स्थित होकर
श्वासको उत्पन्न करता है ॥ ४ ॥

महाश्वासके लक्षण ।

उद्धूयमानवातो यः शब्दवद्दुःखितो-
नरः । उच्चैः श्वसिति संरुद्धो मत्तर्षभ-
इवानिशम् ॥ ५ ॥ प्रनष्टसंज्ञाविज्ञा-
नस्तथा विभ्रान्तलोचनः । विवृत्ता-
क्षाननो बद्धमूत्रवर्चा विशीर्णवाक् ॥
॥ ६ ॥ दीर्घं प्रश्वसितं चास्य दूराद्वि-
ज्ञायते भृशम् । महाश्वासोपसृष्टस्तु
क्षिप्रमेव विपद्यते ॥ ७ ॥

जिस मनुष्यके प्राणवायु शब्द करता हुआ ऊर्ध्व-
गतिको प्राप्त होकर मुखसे श्वासको छोड़ता है तो
मनुष्य दुःखित होता है। जिस प्रकार रोकाहुआ मस्त
बैल ऊपरको श्वास लेता है, उसी प्रकार यह मनुष्य
रात्रि दिन निरन्तर श्वास लेता है, उसका ज्ञान, विज्ञान
नष्ट होजाता है, नेत्र भ्रान्तियुक्त हों, नेत्र और मुख
जिमके फैलजाय, मलमूत्रादिकका अवरोध हो, स्वर
क्षीण हो, चित्त व्याकुल हो, श्वास बहुत दीर्घ हो, ये
लक्षण जिसमें हो, उसको महाश्वास कहते हैं। महा-
श्वासवाला रोगी शीघ्र मरजाता है ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥

ऊर्ध्वश्वासके लक्षण ।

ऊर्ध्वं श्वसिति यो दीर्घं न च प्रत्याह-
रत्यधः । श्लेष्मावृत्तमुखस्रोताः क्रुद्ध-
गन्धवहार्दितः ॥ ८ ॥ ऊर्ध्वदृष्टिर्विप-
श्यंश्च विभ्रान्ताक्ष इतस्ततः । प्रमुह्य-
न्वेदनार्त्तश्च शुष्कास्योऽरतिपीडितः ॥
॥ ९ ॥ ऊर्ध्वश्वासे प्रकुपिते चाधः
श्वासो निरुध्यते । मुह्यतस्ताम्यत-
श्चोर्ध्वं श्वासस्तस्यैव हन्त्यसून् ॥ १० ॥

जो मनुष्य ऊपरको लम्बा श्वास लेता है, वह
नीचेको नहीं उतरता क्योंकि वह कुपितवायुसे पीडित
होता है। तब कफसे मुख और सब शरीरके स्रोत
रुकजाते हैं। नेत्र भ्रान्तियुक्त हो कर ऊपरको और
जिघर तिघरको देखते हैं। मोह और वेदनासे पीडित
हो, मुख सूखे और वैचैनी हो, ऊर्ध्वश्वासके कुपित
होनेसे अधः श्वास रुकजाता है और वह मनुष्य मोह
युक्त और खिन्न होकर मरजाता है ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥

छिन्नश्वासके लक्षण ।

यस्तु श्वसिति विच्छिन्नं सर्वप्राणैर्नि-
पीडितः । न वा श्वसिति दुःखात्तो
मर्मच्छेदरुग्दितः ॥ ११ ॥ आना-
हस्वेदमूर्च्छार्त्तो दह्यमानेन बस्ति-
ना । विप्लुताक्षः परिक्षीणः श्वसत्र-
त्कैकलोचनः ॥ १२ ॥ विचेताः परि-
शुष्कास्यो विवर्णः प्रलपन्नरः । छिन्न-
श्वासेन विच्छिन्नः स शीघ्रं विजहा-
त्यसून् ॥ १३ ॥

जो मनुष्य अपनी सम्पूर्णशक्तियोंसे रुक रुक कर
श्वासलेता है उसके हृदयादि मर्मस्थानोमें छेदनेसरी
खी पीडा हो, अत्यन्त पीडा होनेके कारण श्वास भी
न लेसके, अफारा, पसीना और मूर्च्छासे व्याकुल हो,
मूत्रागयमें दाह हो, नेत्र जलसे डुबडुबसे हो, शरीर-
क्षीण हो, बारंबार श्वास लेवे, एक नेत्र लाल होजाय,
अचेत होजाय, मुख सूख जाय, शरीरका रंग विवर्ण
होजाय, बकवाद करे, ऐसा छिन्नश्वाससे पीडित मनु-
ष्य शीघ्रही प्राणोंको छोड़ देता है ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥

तमकश्वासके लक्षण ।

प्रतिलोमं यदा वायुः स्रोतांसि प्र-
तिपद्यते । ग्रीवां शिरश्च संगृह्य श्ले-
ष्माणं समुदीर्य च ॥ १४ ॥ करो-
ति पीनसं तेन रुद्धो घुर्धुरकं तथा ।
अतीव तीव्रवेगश्च श्वासं प्राणप्रपीड-
कम् ॥ १५ ॥ प्रताम्यति स वेगेन त्र-
स्यते स निरुध्यते । प्रमोहं कासमा-
नश्च स गच्छति मुहुर्मुहुः ॥ १६ ॥ श्ले-
ष्मणा मुच्यमानेन भृशं भवति दुःखि-
तः । तस्यैव च विमोक्षान्ते मुहूर्त्तं ल-
भते सुखम् ॥ १७ ॥ तथास्योर्ध्वंसते
कण्ठः कृच्छ्राच्छक्रोति भाषितुम् । न
चापि निद्रां लभते शयानः श्वासपी-
डितः ॥ १८ ॥ पार्श्वे तस्यावगृह्णाति
शयानस्य समीरिणः । आसीनो ल-
भते सौख्यमुष्णश्चैवाभिनन्दति ॥ १९ ॥

उच्छ्रिताक्षो ललाटेन स्वियता भृ-
शमार्त्तिमान् । विशुष्कास्यो बहुश्वा-
सो मुहुश्चैवावधम्यते ॥ २० ॥ मेघां-
बुशीतप्राग्वातैः श्लेष्मलैश्च प्रवर्द्धते ।
स याप्यस्तमकः श्वासः साध्यो वा
स्यान्नवोत्थितः ॥ २१ ॥

जब शरीरकी वायु अपना मार्ग छोड़कर कुमार्गमें जाकर नाडियोंके स्रोतोमें प्राप्त होकर ग्रीवा और गिरफो जकड़कर कफको बढ़ा कर पीनस रोगको उत्पन्न करता है तब वह प्राणवायु उस पीनसरोगके कफसे रुके हुए कंठमें घुरघुर शब्दको करके पश्चात् अत्यन्त तीव्र वेगवाले और प्राणपीडक घोर श्वासको उत्पन्न करता है। तब उस श्वासके वेगसे अत्यन्त व्यथा होती है, त्रास होता है, रोगी निश्चेष्ट होजाता है वारवार खोंसीके उठनेसे बेहोश हो, खोंसनेसे जो कफ निकल जाता है तो एक मुहूर्तमात्रको सुख होता है, गलेमें फांसेसी लगती है, बोलनेसे अत्यन्त कष्ट होता है जब वह सोता है तो नींद नहीं आती, क्योंकि लेटनेसे वायु पसलियोंमें पीडाको करता है और जब वह उठता है तब चैन पडता है। गरम पदार्थोंमें इच्छा होती है, नेत्र ऊपरको सूजेसे रहै, ललाटमें पसीनेके आनेके कारण अत्यन्त व्याकुलता होती है, मुख वारम्बार सूखता है और जिस प्रकार हाथीपर बैठनेसे शरीर हिलता है उसी प्रकार वारंवार श्वास लेनेसे हिलता है। यह श्वास मेघके वर्षनेसे, शीतल पदार्थोंके सेवन करनेसे, अथवा गीतकृतुमें या गीत देशमें रहनेसे, पूर्वकी पवनके चलनेसे और कफकारक पदार्थोंको सेवन करनेसे वृद्धिको प्राप्त होता है। यह तमकश्वास याप्य है और कदाचित् नवीन उत्पन्न हुआ साध्य भी होता है ॥ २०-२१ ॥

प्रतमकश्वासके लक्षण ।

ज्वरमूर्च्छापरीतस्य विद्यात्प्रतमक-
न्तु तम् । उदावर्त्तरजोऽजीर्णक्लिन्नका-
यनिरोधजः ॥ २२ ॥ तमसा वर्धते-
ऽत्यर्थं शीतैश्चाशु प्रशाम्यति । मज्ज-
तस्तमसीवास्य विद्यात्प्रतमकन्तु
तम् ॥ २३ ॥

इस तमकश्वासमें ज्वर और मूर्च्छा होनेसे इसको प्रतमक कहते हैं। अन्य आचार्योंका यह मत है कि उदावर्त्तसे, नाक और मुखमें धूलके गिरनेसे, अजीर्णसे, विदग्ध भोजनके पकनेसे अथवा अधिकतर भोजनकरनेसे और मलमूत्रादिकके वेगोको रोकनेसे उत्पन्न हुआ जो श्वास वह उष्णतासे अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त होता है, शीतलतासे शांत होता है और उस रोगीको यह जान पडता है कि, मैं अन्धकारमें डूबा हुआ हूं इसको प्रतमक श्वास कहते हैं ॥२२॥२३॥

क्षुद्रश्वासके लक्षण ।

रूक्षायामसोद्भवः कोष्ठे क्षुद्रो वातमु-
दीरयेत् । क्षुद्रश्वासेन सोऽत्यर्थं दुःखे-
नाङ्गप्रबाधकः ॥ २४ ॥ हिनस्ति न
च गात्राणि न च दुःखं यथोत्तरम् । न
च भोजनपानानां निरुणद्ध्युचिता-
ङ्गतिम् ॥ २५ ॥ नेन्द्रियाणां व्यथाश्चै-
व काश्चिदापादयेद्भुजम् । स साध्य
उक्तो बलिनः सर्वो वाऽव्यक्तलक्षणः ॥
तक्षुद्रः साध्यतमस्तेषां तमकः कृच्छ्र
उच्यते ॥ २६ ॥ त्रयः श्वासा न सि-
ध्यन्ति तमको दुर्बलस्य च ॥ २७ ॥
कामं प्राणहरा रोगा बहवो न तु ते
तथा । यथा श्वासश्च कासश्च हरते प्रा-
णमाशु हि ॥ २८ ॥ वाताधिको भवे-
त्क्षुद्रस्तमकस्तु कफोत्तरः । कफाद्वा-
ताधिकात्पित्तसंसृष्टश्छिन्नसंज्ञकः ॥
श्वासो मारुतसंसृष्टो महानूर्ध्वस्तथा
मतः ॥ २९ ॥

रूखे पदार्थोंको सेवन करनेसे और अत्यन्त परिश्रम करनेसे क्षुद्रश्वास उत्पन्न होता है इसमें वायु बढ़ जाती है, किन्तु यह और श्वासेकी समान अत्यन्त दुःखदायक नहीं है तथा यह महाश्वासादि-कोंकी समान अंगोंको पीडित करनेवाला और कष्टदायक नहीं है। यह भोजन पानादिकी यथोचित गतिको भी नहीं रोकता है, इन्द्रियोंको भी पीडित नहीं करता है और अन्यान्य किसी रोगको भी उत्पन्न नहीं करता, यह क्षुद्रश्वास साध्य होता है

साध्य होता है । और बलवान् मनुष्यके उत्पन्न हुए महाग्वासादिक भी जबतक सम्पूर्ण लक्षणोयुक्त नहीं होते हैं तबतक साध्य होते हैं और क्षुद्रश्वास इन सब श्वासोमे अत्यन्त सुखसाध्य है । तमक श्वास कृच्छ्रसाध्य है । महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास और छिन्नश्वास ये बीनो कष्ट साध्य है, और दुर्बल मनुष्यके उत्पन्न हुआ तमकश्वास भी असाध्य है । जितने रोग हैं प्रायः सभी प्राणनाशक है, उनमें बहुतेरे अत्यन्त कठिन है और उन सबमें खाँसी और श्वास जितना शीघ्र प्राणोंका नाश करते हैं उसप्रकार अन्य नहीं करते हैं । इनमें क्षुद्रश्वास वातोत्त्रण है, तमकश्वास कफोत्त्रण है, छिन्नश्वास त्रिदोषज है, महाश्वास और ऊर्ध्वश्वास वातोत्त्रण है ॥ २४-२९ ॥

श्वसादिकी चिकित्सा ।

स्नेहवस्तिमृते केचिदूर्ध्वश्वाधश्च शोधनम् । मृदुप्राणवतां श्रेष्ठं श्वासिनामादिशन्ति हि ॥ ३० ॥

श्वासरोगमें प्रथम दुर्बल मनुष्यके स्नेह वास्तिके क्तिता ऊर्ध्व और अधः शोधन कराना चाहिए ॥ ३० ॥

दशमूलीशटीराम्नापिप्पलीविश्वपौष्करैः । शृङ्गीतामलकीभाङ्गीगुडुचीनागरादिभिः ॥ ३१ ॥ यवागूं विधिना सिद्धं कषायं वा पिवेन्नरः । कासहृद्ग्रहपार्श्वार्त्तिहिकाश्वासप्रशान्तये ॥ ३२ ॥

दशमूल, कचूर, रायसन, पीपल, सोठ, पोहकरमूल, काकडासिगी, मुईआमला, भारंगी, गिलोय और ओठ इनकी विधिपूर्वक यवागू बनाकर सेवन करे तो खाँसी, हृदयरोग, पार्श्वशूल, हिचकी और श्वास दूर होता है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

कुलित्थयवकोलाम्लदशमूलबलाजलम् । पानार्थं कल्पयेत्कासहिकाश्वासनिवृत्तये ॥ ३३ ॥

कुलथी, जौ, खट्टेवेर, दशमूल और खिरैटी इनका काथ हिचकी और श्वासको दूर करनेके लिये पान करे ॥ ३३ ॥

कुलित्थनागरव्याघ्रीवासाभिः कथितं जलम् । पीतं पौष्करसंयुक्तं श्वासकासनिवारणम् ॥ ३४ ॥

कुलथी, सोठ, कटेरी, अड्डसा इनके काथमें पोहकरमूलका चूर्ण डालकर पान करनेसे श्वास और खाँसी दूर होती है ॥ ३४ ॥

दशमूलस्य वा काथः पौष्करेणावचूर्णितः । श्वासकासप्रशमनः पार्श्वशूलविनाशनः ॥ ३५ ॥

दशमूलके काथमें पोहकरमूलका चूर्ण डालकर पान करनेसे श्वास और खाँसी दूर होती है और पसलियोंकी पीडा शांत होती है ॥ ३५ ॥

रम्भाकुन्दशिरिषाणां कुसुमं पिप्पलीयुतम् । पिष्ट्वा तण्डुलतोयेन पीत्वा श्वासमपोहति ॥ ३६ ॥

केला, कुन्द और शिरस इनके फूल तथा पीपल सबको एकत्र चावलोके जलमें पीसकर पीनेसे श्वास रोग दूर होता है ॥ ३६ ॥

देवदारुवचाभाङ्गीविश्वपौष्करकटफलैः । कृत्वा काथो जयत्याशु श्वासकासानशेषतः ॥ ३७ ॥

देवदारु, वच, भारंगी, सोठ, पोहकरमूल और कायफल इनका काथ बनाकर सेवन करनेसे श्वास और खाँसी दूर होती है ॥ ३७ ॥

शृङ्गीमहौषधिकणावनपुष्कराणां चूर्णं शटीमरिचयोश्च सिताविमिश्रम् । काथेन पीतममृता वृषपञ्चमूल्याः श्वासं त्र्यहेन विनिहन्ति हि घोररूपम् ॥ ३८ ॥

काकडासिगी, सोठ, पीपल, नागरमोथा, पोहकरमूल, कचूर और कालीमिरच इनका चूर्ण करके गिलोय, अड्डसा और पंचमूलके काथमें डालकर मिश्री मिलाकर पान करे तो तीन दिनमें घोर श्वास दूर होता है ॥ ३८ ॥

कूप्माण्डकासिताचूर्णं पीतं कौष्णेन
वारिणा । शीघ्रं शमयति श्वासं का-
सश्चैव सुदारुणम् ॥ ३९ ॥

पेठा और मिश्री इनके चूर्णको गरम जलके साथ
पान करे तो शीघ्र ही दारुण श्वास और खांसी दूर
होती है ॥ ३९ ॥

व्याघ्रीदुरालभाशृङ्गीबिल्वमध्यत्रिक-
ण्टकैः । सामृताग्निशृतैरैतैर्युषः स्या-
च्छ्वासान्तुत्परः ॥ ४० ॥

कटेरी, धमासा, काकडाभिगी, बेलगिरी, गोखरू,
गिलोय और चीता इनका यूप बनाकर पीनेसे श्वास
रोग दूर होता है ॥ ४० ॥

कुलित्थदशमूलानां काथे स्युर्जाङ्गला
रसाः । कासमर्दकपत्राणां यूषः सौ-
भाञ्जनस्य च ॥ ४१ ॥ शुष्कमूलकयू-
षश्च हिक्काश्वासनिवारणः ॥ ४२ ॥

कुलथी और दशमूलके काथमे जांगल जीवोका
मांसरस डालकर अथवा कसौदीके पत्तोंका यूप
किम्बा सहिजेनेका यूप अथवा मूलीका यूप भी हिच-
की और श्वासको दूर करता है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

द्राक्षां हरीतकीं कृष्णां कर्कटाख्यां
दुरालभाम् । विलिहन्मधुसर्पिर्भ्यां
श्वासान् हन्ति सुदारुणान् ॥ ४३ ॥

दाख, हरड, पीपल, काकडाभिगी और धमासा
इनका चूर्ण करके गहद और घी मिलाकर सेवन करे
तो दारुण श्वास दूर होता है ॥ ४३ ॥

गुडं कटुकतैलेन मिश्रयित्वा समं
लिहन् । त्रिसप्ताहप्रयोगेण श्वासं नि-
र्मूलतां नयेत् ॥ ४४ ॥

समान भाग गुडको कड़वे तेलमें मिलाकर २१
दिनतक सेवन करनेसे श्वासरोग नष्ट होता है ॥ ४४ ॥

श्वाविधः सूचका दग्धा सक्षौद्रघृत-
शर्करा ॥ ४५ ॥ श्वासकासहरा बहि-
पादौ वा मधुसर्पिषा ॥ ४६ ॥

खरगोज और सेडके मांसको जलाकर गहद, घी
और मिश्री मिलाकर सेवन करे तो श्वास और खांसी
दूर होती है अथवा मोरके पांवांको जलाकर गहद
और घी मिलाकर सेवन करनेसे श्वास और खांसी-
दूर होती है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥

हरिद्रां मरिचं द्राक्षां गुडं राक्ष्णां कणां
शटीम् । तैलेन विलिहन् हन्या-
च्छ्वासान् प्राणहरानपि ॥ ४७ ॥

हल्दी, कालीमिरच, दाख, गुड, रायसन, पीपल
और कचूर इनको पीसकर तेल मिलाकर चाटनेसे
श्वास दूर होता है ॥ ४७ ॥

“हरिद्रापत्रमैरण्डमूलं लाक्षां मनः-
शिलाम् । देवदारुघनं मांसीं पिष्ट्वा
वार्त्ति प्रकल्पयेत् ॥” तां घृतात्कां पि-
बेद्भूमं श्वासं हन्ति सुदारुणम् । श्वा-
सहिक्कापरिगतं स्निग्धैः स्वेदैरुपाच-
रेत् ॥ ४८ ॥ युक्तैर्लवणतेलाभ्यां तैर-
स्य ग्रथितः कफः । श्वासो विलयनं
याति मारुतश्च प्रशाम्यति ॥ ४९ ॥
स्निग्धं ज्ञात्वा ततश्चैनं भोजयित्वा
रसौदनम् । वातश्लेष्मविवन्धे वा भि-
षग्धूमं प्रयोजयेत् ॥ ५० ॥

6 हल्दी, तेजपत्र, अडकी जड, लाख, मैनशिल, दे-
वदारु, नागरमोथा और वालछड इनको एकत्र पीस-
कर वन्ती बनावे। फिर इन वस्तियोंको बीसे सानकर
उनका धुआं पीवे तो दारुण श्वास दूर होता है । हि-
चकीमे श्वास हो तो स्निग्ध और स्वेदकर्म करे, और
जो हृदयमे कफ अटक रहा तो सैधानमक तेलमें
मिलाकर मालिश करे इससे श्वास नष्ट होता है और
वायु जमन होजाती है फिर इसको स्निग्ध जानकर
रसौदनका भोजन करावे और वातकफका विवन्ध हो
तो धूमपान प्रयोग करे ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥

शृङ्गाद्यादि चूर्ण ।

शृङ्गीकटुत्रयफलत्रयकण्टकारी भा-
ङ्गीसपुष्करजटालवणानि पञ्च । चूर्णं
पिबेदशिशिरेण जलेन हिक्काश्वा-
सोर्ध्ववातकसनारुचिपीनसेषु ॥ ५१ ॥

काकडागिगी, त्रिकुटा, त्रिफला, कटेरी, नारङ्गी, पोहकरमूल और पांचो तमक इनका वारीक चूर्ण कर के गरम जलके साथ पान करनेसे हिचकी, श्वास, ऊर्ध्ववात, खाँसी, अरुचि और पीनस रोग नष्ट होता है ॥ ५१ ॥

निदग्धिकां चामलकप्रमाणां हिंवा-
द्र्युक्तां मधुनोऽशयुक्ताम् । लिहेन्नरः
श्वासनिपीडितो हि श्वासं जयत्येष
बलाद्भ्यहेण ॥ ५२ ॥

कटेरी और आमले समान भाग लेकर चूर्ण कर लेवे । फिर इस चूर्णमे शहद और शहदसे चौथाई भाग हींग और अदरखका रस डालकर सेवन करे तो तीन दिनोंमें श्वास रोग दूर होता है ॥ ५२ ॥

भल्लातकमधुपर्णीपथ्यादशमूलनागर-
काथः । तमके कफप्रधाने शस्तः
श्वासे च माहृतजे ॥ ५३ ॥

भिलावा, मुलैठी, हरड़ा, दशमूल और सोंठ इनका काथ कफोत्पन्न तमक श्वास और वातके श्वासमें हितकारी है ॥ ५३ ॥

पथ्याकषायमथवा पिवेद्रसं मार्कव-
स्य मधुना । तमके पुष्करजम्बा स
नागरं क्षीरमेकञ्च ॥ ५४ ॥

अथवा हरडके काथको किम्बा भांगरेको रसको शहदमें मिलाकर पान करे किम्बा तमकश्वासमें पोहकरमूल, जामुन और सोंठको दूधमें औटाकर पान करे ॥ ५४ ॥

शट्यादि चूर्ण ।

शटी पुष्करजीवन्तीत्वङ्मुस्तंपुष्करा-
ह्वयम् । सुरसा नामलक्यौ वा
पिप्पल्यगुरुनागरम् ॥ ५५ ॥ बाल-
कस्य समं चूर्णं कृत्वाष्टगुणशर्करम् ।
सर्वथा तमके श्वासे हिक्कायाञ्च प्रयो-
जयेत् ॥ ५६ ॥ अत्रैकस्माद्भव्या-
दष्टगुणा शर्करा । सर्वथेति पान-
भोजनादिषु ॥

कचूर, कूठ, जीवन्ती, दालचीनी, नागरमोथा, पोहकरमूल, तुलसी, मुँई आमला, मुँईतरवट, पीपल,

अगर, सोंठ और सुगन्धवाला इन सबको समान भाग लेकर वारीक पीसकर चूर्ण करले और चूर्णमें आठ भाग मिश्री मिलाकर सेवन करे। इसको भोजनपानादिमे सर्वथा व्यवहार करनेसे श्वास और हिचकी दूर होती है ॥ ५५ ॥ ५६ ॥

हिंसादिघृत ।

हिंसाविडङ्गपूतिकत्रिफलाव्योषचि-
त्रकैः । द्विद्वारं सर्पिषः प्रस्थं चतुर्गु-
णजले प्लुतम् ॥ ५७ ॥ कर्षवात्रैः पचे-
त्तद्वि श्वासकासौ व्यपोहति । अ-
र्शास्थरोचकं गुल्मं शकृद्देदं क्षयं
तथा ॥ ५८ ॥

हिंसा (कटेरी), वायविडंग, पूतिकरंज, त्रिफला, त्रिकुटा, चीता और दोनो खार (जवाखार, सजी) प्रत्येकके एक एक कर्प प्रमाण कलकके द्वारा एकप्रस्थ घीको चौगुने जलमे पकावे । यह-श्वास, खाँसी, ववासीर, अरुचि, गुल्म और मलभेदको दूर करता है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥

सौवर्चलादिघृत ।

सौवर्चलयवक्षारकटुकाव्योषचित्रकैः ।
घृतं वचाविडङ्गैश्च साधितं श्वा-
सशान्तये ॥ ५९ ॥

कालानमक, जवाखार, कुटकी, त्रिकुटा, चीता, वच और वायविडंग इनके कलकके द्वारा घृतको सिद्ध करे । इसको श्वासके शांत करनेके लिये पान करे ॥ ५९ ॥

कुलित्थादिघृत ।

कुलित्थरससंयुक्तं पञ्चकोलशृतं घृतम् ।
दीपनं श्वासकासघ्नं कफव्याधिहरं प-
रम् ॥ ६० ॥

कुलथीका रस और पंचकोलका काथ इनमें घृतको सिद्ध करे । इसको सेवन करनेसे अग्निदीपन, श्वास और खाँसी दूर होती है और कफरोग नष्ट होता है ॥ ६० ॥

तित्तादिघृत ।

तित्तासौवर्चलक्षारपथ्यात्रिकटुहिंशु-
भिः । समालूरैर्घृतं सिद्धं सक्षीरं श्वा-
सकासनुत् ॥ ६१ ॥ गुल्मानाहञ्च
शमयेत्प्रवृद्धान्गुदजानपि ॥

कुटकी, कालानमक, जवाखार, हरड, त्रिकुटा और हींग इनके द्वारा चौगुने दधमें घीको पकावे । यह घृत-श्वास, खाँसी, गुल्म, अफारा और वही-हुई बवासीरको दूर करता है ॥ ६१ ॥

द्वितीयकुलित्यादि घृत ।

कुलित्यदशमूलश्च तथा ब्राह्मणयष्टिका । प्रस्थं प्रस्थञ्च संगृह्य वारिद्रोणेन साधयेत् ॥ ६२ ॥ पादशेषरसे तस्मिन् घृतप्रस्थं विपाचयेत् । क्षीरकं द्विगुणं दत्त्वा कलिकतैः पञ्चकोलकैः ॥ ६३ ॥ सक्षारैः पलिकैः सर्वैः शनैर्मुद्गग्निना पचेत् । कासश्वासहरश्चैव हिक्काश्च विषमज्वरम् ॥ ६४ ॥ हन्यात्तथाशोऽग्रहणीहृद्रोगारुचिपीनसान् । गुल्मं प्लीहामयं हन्याद्वलवर्णाग्निवर्धनम् ॥ ६५ ॥ अग्निसन्दपिनश्चैव कौलित्यं षट्पलं घृतम् ॥ ६६ ॥

कुलथी, दशमूल और भारगी प्रत्येक औषधि एक २ प्रस्थ लेकर एक द्रोण जलमें पकावे । जब पकते २ चौथाई भाग जल गेग रहजाय तब उतारकर छान लेवे । फिर उसमें एक प्रस्थ घी और दुगुना दूध, तथा पंचकोल और जवाखारका कलक चार २ तोले डालकर मन्द मन्द अग्निसे पकावे । यह घृत-खाँसी और श्वासको हरनेवाला तथा हिक्का, विषमज्वर, बवासीर, ग्रहणी, हृदयरोग, अरुचि, पीनस गुल्म और प्लीहाको दूर करनेवाला है । बल, वर्ण और अग्निको बढ़ानेवाला तथा अग्निको दीपन करने वाला है ॥ ६२-६६ ॥

सुवहादि घृत ।

सुवहाकालिकाभाङ्गी शुकाख्यं कौचुलं फलम् । काकादनी शृङ्गवेरं वर्षाभूर्बृहतीद्वयम् ॥ ६७ ॥ पलमात्रैर्वृतप्रस्थं पचेदेतैर्जलाढके । कटुष्णं पीतमेतद्धि श्वासाभयविनाशनम् ६८ ॥

नीलसिन्धुवार, नीली, भारगी, गिरसा, कौलके बीज, काकादनी, अदरख, पुनर्नवा और दोनो कटेरी;

प्रत्येक औषधिको एक एक पल लेकर कलक बनावे । फिर इस कलकके द्वारा एक प्रस्थ घीको एक आढ़क जलमें पकावे । फिर इस घृतको सुहाता २ पीवे तो यह श्वासको दूर करता है ॥ ६७ ॥ ६८ ॥

भृङ्गराजतैल ।

तैलं दशगुणे सिद्धं भृङ्गराजरसे शुभे । पीयमानं यथान्यायं श्वासकासौ व्यपोहति ॥ ६९ ॥

दशगुने भोंगरेके रसमें तिलका तेल पकाकर यथाविधिसं पान करे तो श्वास और खाँसी दूर होती है ॥ ६९ ॥

क्षीरपिप्पली ।

तिष्ठस्तिष्ठस्तु पूर्वाह्नि भुक्ताग्ने भोजनस्य च ॥ ७० ॥ पिप्पलयः किंशुकक्षारभाविता घृतभाजिताः । प्रयोज्या मधुसंमिश्रा रसायनगुणैषिणा ॥ ७१ ॥ जेतुं कासक्षयश्वासहिक्काशोषगलामयान् ॥ ७२ ॥ अशोसि ग्रहणीदोषं पांडुतां विषमज्वरान् ॥ ७३ ॥ वैस्वर्यं पीनसं शोफं गुल्मं वातबलासकम् । मासमेवाशनतो युक्त्या माध्विकां पिबतोऽनु च ॥ ७४ ॥

दिनके पूर्वकालमें भोजनसे प्रथम तीन २ पीपल लेकर ढाकके क्षारमें भावना दे घीमें भून शहदमें मिलाकर रसायनकी इच्छा करनेवाला मनुष्य सेवन करे । यह खाँसी, राजयक्ष्मा, श्वास, हिक्का, शोष, गलरोग, बवासीर, संग्रहणी, पाण्डुरोग, विषमज्वर, स्वरभंग, पीनस, सूजन, गुल्म और वात बलासक रोगको दूर करता है । इसको युक्तिपूर्वक एक महीने तक सेवन करे । माध्वीक नामक मदिराका अनुपान करे ॥ ७०-७४ ॥

भाङ्गीगुड ।

शतं संगृह्य भाङ्गर्यास्तु दशमूल्यास्तथा परम् । शतं हरीतकीनाश्च पचेत्तोये चतुर्गुणे ॥ ७५ ॥ पादावशेषं तस्मिंस्तु रसे वस्त्रनिपीडिते । आ-

लोड्य च तुलां पूतां गुडस्य त्वभयां
ततः ॥ ७६ ॥ पुनः पचेत्तु मृद्धन्नां या-
वह्लेहत्वमागतम् । शीते च मधुनश्चा-
त्र षट्पलानि प्रदापयेत् ॥ ७७ ॥ त्रि-
कटुत्रिसुगन्धश्च पलिकानि पृथक् पृ-
थक् । कर्षद्वयं यवक्षारं संचूर्ण्य प्रक्षि-
पेत्ततः ॥ ७८ ॥ भक्षयेदभयामेकां ले-
हस्यार्द्धपलं लिहेत् । श्वासं सुदारुणं
हन्ति कासं पञ्चविधं तथा ॥ ७९ ॥
स्वरवर्णप्रदो ह्येष जठरान्निप्रदीपनः ।
हरीतकीशतस्यात्र प्रस्थत्वादाढकं
जलम् ॥ ८० ॥

भारंगी, दशमूल और हरड प्रत्येक १०० पल
लेकर चौगुने जलमें पकावे । जब चौथाई भाग जल
शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे इस काथमे
१००पल गुड और पूर्वोक्त काथकी हरड निकालकर
मिलाकर खूब आलोडन करके मन्द २ अग्निसे पकावे।
जब पकते २ लेहके समान होजाय तब शीतल होने
पर उसमे छः पल शहद मिलादेवे। तथा सोठ, मिरच,
पीपल, दालचीनी, इलायची, तेजपात, प्रत्येकका
चूर्ण चार २ तोले और जवाखार दो तोले मिलाकर
प्रतिदिन इसमेसे एक हरड खाय और दो तोले अव-
लेह चाटे । यह भाङ्गिगुड दारुण श्वास और पांचो
प्रकारकी खॉसीको दूर करता है । स्वरका सुन्दर
करनेवाला, वर्णको उज्ज्वल करनेवाला और अग्निको
दीपन करनेवाला है । यहां हरड १०० पल नहीं किन्तु
१०० हरड लेनी चाहिए । और जल एक आढक
परिमाण लेना चाहिए ॥ ७५—८० ॥

० कुलित्थगुड ।

कुलित्थं दशमूलश्च तथैव द्विजयाष्टि
का । शतं शतश्च संगृह्य जलद्रोणे
विपाचयेत् ॥ ८१ ॥ पादावशेषे त-
स्मिस्तु गुडस्यार्धतुलां क्षिपेत् ॥ ८२ ॥
शीतीभूते च पक्के च मधुनोऽष्टौ प-
लानि च ॥ ८३ ॥ षट्पलानि तुगा-
क्षीर्याः पिप्पल्याश्च पलद्वयम् । त्रि-

सुगन्धि सुगन्धश्च खादेदाग्निबलं प्रति
॥ ८४ ॥ श्वासं कासं ज्वरं हिक्कां ना-
शयेत्तमकं तथा । योगसंदर्शनादत्र
वृद्धवैद्योपदेशतः ॥ ८५ ॥ जलं चतु-
र्गुणं देयं स्वल्पत्वाद्द्रोणवारिणा ।
मानसान्निध्यसंवादाद्विपलं त्रिसुग-
न्धिनः ॥ ८६ ॥

कुलथी, दशमूल और भारंगी ये प्रत्येक औषधि
सौ सौ पल लेकर एकद्रोण जलमें पकावे। जब पकते
२ चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छान
लेवे । फिर इसमे ५० पल गुड डालकर पकावे। जब
पककर लेहके समान होजाय तब सिद्ध हुआ जाने।
फिर शीतल होनेपर शहद ८ पल, वंशलोचन ६ पल,
पीपल २ पल और त्रिसुगन्धका चूर्ण २ पल तथा
अन्यान्य सुगन्ध द्रव्योंका चूर्ण डालकर मिला देवे
और एक उत्तम चिकने वासनमें भरकर रख देवे ।
यह कुलित्थगुड—श्वास, खॉसी, ज्वर, हिचकी और
तमक श्वासको भी दूर करता है । अनेक प्रकारके
योगोंको देखनेसे और वृद्ध वैद्योके उपदेशसे यहां
जल चौगुना लेना चाहिए । क्योंकि यहां छोटे
द्रोणका परिमाण है । यहां त्रिसुगन्धिकी औषधिये
दो पल लेनी चाहिए ॥ ८१—८६ ॥

इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां

श्वासाधिकार संपूर्ण ।

अथ स्वरभेदरोगाधिकार ।

अत्युच्चभाषणविषाध्ययनाभिघातस
न्दूषणैः प्रकुपिताः पवनादयस्तु ।
स्रोतस्तु ते स्वरवहेषु गताः प्रतिष्ठां
हन्युः स्वरं भवति चापि हि षड्वि-
धः सः ॥ १ ॥

अत्यन्त जोरसे बोलनेसे, विषादिकको भक्षण करनेसे, बहुत जोरसे वेदादिकको पढ़नेसे और कण्ठमें चोटादिकके लगनेसे वातादि दोष कुपित होकर स्वरकी बहनेवाली जो कण्ठमें नसे है उनमें प्राप्तहोकर स्वरको नष्ट करके छः प्रकारके स्वरभेदको उत्पन्न करते हैं ॥ १ ॥

वातेन कृष्णनयनाननमूत्रवर्चा भिन्नं
शनैर्भवति गर्दभवत्स्वरश्च । पित्तेन
पीतनयनाननमूत्रवर्चा ब्रूयाद्गलेन स
च दाहसमन्वितेन ॥ २ ॥

वायुके स्वरभेदमें रोगीके नेत्र, मुख, मूत्र और विष्ठा काले हों, स्वर फटा हुआ तथा गधेके स्वरके समान होता है । पित्तके स्वरभेदमें नेत्र, मुख, मूत्र और विष्ठा पीले होते हैं और बोलते समय कण्ठमें जलन होती है ॥ २ ॥

ब्रूयात्कफेन सततं कफरुद्धकण्ठः स्व-
ल्पं शनैर्वदति चापि दिवा विशेषा-
त् । सर्वात्मके भवति सर्वाविकार-
संपत्तं चाण्यसाध्यमृषयः स्वरभेद-
माहुः ॥ ३ ॥

कफके स्वरभेदमें निरन्तर कण्ठ कफसे रुका रहे, थोड़ा थोड़ा धीरे-धीरे बोलें और दिनमें सूर्यके निकलनेपर कफके फटनेसे बहुत बोलना है एवं त्रिदोषके स्वरभेदमें तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं और यह असाध्य है ऐसा आयुर्वेदाचार्यगण कहते हैं ॥ ३ ॥

धूमेत वाक् क्षयक्षते क्षयमाप्नुयाच्च
वागेषु चापि हतवाक्परिवर्जनीयः ।
अन्तर्गतं स्वरमलक्षपदं चिरेण मेदो-
न्वयाद्गदति दिग्धगलस्तृषार्त्तः ॥ ४ ॥

क्षयके स्वरभेदमें बोलते समय धुंआसा निकले, और टूटे फूटे शब्द निकलें। जब इसमें वाणीका नाश होता है तब यह असाध्य होजाता है । भेदके स्वरभेदमें कठ कफभेदसे चिकटा रहता है और बहुतकालमें गलेके भीतर कुछ समयमें न आत्रे ऐसा बोलता है और उसको तृषा अधिक लगती है ॥ ४ ॥

असाध्यके लक्षण ।

क्षीणस्य वृद्धस्य कृशस्य चापि चि-
रोत्थितो यः सहजोऽपि जातः । मेद-
स्विनः सर्वसमुद्भवश्च स्वराभयो यो
न स सिद्धिमेति ॥ ५ ॥

क्षीण मनुष्य, वृद्ध और कृश मनुष्यके उत्पन्न हुआ स्वरभेद, बहुत दिनोंसे उत्पन्न हुआ, जन्मसे प्रगट हुआ, भेदसे उत्पन्न हुआ और तीनों दोषोंसे उत्पन्न हुआ स्वरभेद असाध्य है ॥ ५ ॥

चिकित्सा ।

स्निग्धान् परं तापनकृष्यधातून् संयो-
जयेद्गमनवस्तिविरेचनैश्च । नस्याव-
पीडमुखधावनधूमलेहैः सम्पादयेत्तु
विविधैः कवलप्रहैश्च ॥ ६ ॥

प्रथम स्नेहपान, ताप और धातुओंका अपकर्षण करे तथा स्नेह, वस्तिकर्म, वमन और विरेचन प्रयोग करे, पश्चात् नस्य, अवपीडन, मुखधावन, धूमपान और अवलेह तथा अनेक प्रकारके कवल मुखमें धारण करे ॥ ६ ॥

यः श्वासकासविधिरादित एव चो-
क्तस्तश्चाप्यशेषमवचारयितुं यतते ॥ ७ ॥
जो विधि श्वास और कासरोगमें कही है वह विधि इस स्वरभंगमें विचार कर करनी चाहिए ॥ ७ ॥

कासमर्दादिघृत ।

स्वरोपघातेऽनिलजे भुक्तोपरि घृतं
पिबेत् ॥ ८ ॥ कासमर्दकवार्त्ताकमा-
र्कवस्वरसैः पचेत् । पीतं घृतं हन्त्य-
निलं सिद्धं वार्त्ताकजे रसे ॥ ९ ॥

वातके स्वरभेदमें प्रथम भोजन करके पश्चात् घृतको पान करे । कसौंदी, वैगुन और भांगरेके स्वरसमें घृतको सिद्ध करे। अथवा केवल वैगुनके रसमें सिद्ध करे इस घृतको पान करनेसे वातका स्वरभेद दूर होता है ॥ ८ ॥ ९ ॥

तथा कोष्णजलं देयं भुक्त्वा घृतगुडौ-
दनः । पैत्तिके च विरेकस्तु पयश्च
मधुरैः शृतम् ॥ लिहेन्मधुरकानां वा

चूर्णं मधुसमायुतम् ॥ १० ॥ अश्रिया-
च्च ससर्पिष्कं यष्टीमधुकषायकम् ॥ ११ ॥

घी, गुड और भातको भोजन करके गरमजलको पान करे । पित्तके स्वरभेदमें विरेचन करावे और मधुर औषधियोंको दूधमें औंटाकर पान करे, अथवा मधुर औषधियोंका चूर्ण करके शहदमें मिलाकर सेवन करे, किम्वा मुँलठीके काथमें घी डालकर पान करे ॥ १० ॥ ११ ॥

शुंगादिवृत ।

शुङ्गांस्त्वचं क्षीरवतां द्रुमाणां संकु-
द्य दुग्धे विपचेत्तु तेन । कल्केन यष्टी-
मधुकस्य सर्पिः सिद्धं पिबेत्तन्मधुश-
र्कराक्तम् ॥ १२ ॥

क्षीर वृक्षोंके अंकुर और छाल लेकर कूटकर दूधमें पकावे फिर उसमें मुँलठीका कल्क और घी डाल कर घृतको सिद्ध करे । इस घृतमें शहद और मिश्री डालकर पान करे । यह घृत पित्तके स्वरभेदको दूर करता है ॥ १२ ॥

पिप्पली पिप्पलीमूलं मरिचं विश्वभे-
षजम् । पिबेन्मूत्रेण मतिमान् कफ-
जे स्वरसंक्षये ॥ १३ ॥

पीपल, पीपलामूल, कालीमिरच और सोंठ इनका चूर्ण गोमूत्रमें डालकर पान करे । यह कफके स्वरभेदको नष्ट करता है ॥ १३ ॥

अजमोदां निशां धात्रीं क्षारं वह्निं
विचूर्ण्य च । मधुसर्पिर्भुतं लीङ्गा स्वर-
भेदं व्यपोहति ॥ १४ ॥

अजमोद, हल्दी, आमले, जवाखार और चीता इनका चूर्ण घी और शहदमें सेवन किया हुआ स्वरभेदको नष्ट करता है ॥ १४ ॥

पलत्रिकञ्चूषणयावशुकचूर्णञ्च हन्या-
त्स्वरभेदमाशु । किं वा कुलित्थं वद-
नान्तरस्थं स्वरामयं हन्त्यथ पौष्करं
वा ॥ १५ ॥

त्रिफला, त्रिकुटा और जवाखार इनके चूर्णको किम्वा कुलथीका चूर्ण अथवा पोहकरमूलके चूर्णको मुखमें रखनेसे स्वरभंगरोग नष्ट होता है ॥ १५ ॥

वाते सलवणं तैलं पित्ते सर्पिः समा-
क्षिकम् । कफे सक्षारकटुकं क्षौद्रं
केवलमिष्यते ॥ १६ ॥

वातके स्वरभेदमें सैधानमक तेलमें मिलाकर सेवन करे, पित्तके स्वरभेदमें शहदमें घी मिलाकर सेवन करे, कफके स्वरभेदमें जवाखार, त्रिकुटा और शहद इनको सेवन करे ॥ १६ ॥

गले तालुनि जिह्वायां दन्तमूलेषु
चाश्रितः । तेन निष्क्रामते श्लेष्मा स्व-
रश्चाशु प्रसीदति ॥ १७ ॥

इसप्रकार करनेसे गला, तालु, जीभ और दातोंकी जड़ इनमें रहनेवाला कफ निकलकर गिर जाता है और स्वर स्वच्छ होजाता है ॥ १७ ॥

अगुरुसुरदारुदार्वीसलिलं स्वरभेद-
हृत्पिबेत्कोष्णम् । व्याघ्रिसुरतरुना-
गरससिंहमुखकाथमथवापि ॥ १८ ॥

नैलाक्तं स्वरभेदे वा खादिरं धारये-
न्मुखे । पथ्यापिप्पलिसंयुक्तं युक्तं वा
नागरेण तु ॥ १९ ॥ बदरीपत्रकल्कन्तु
घृतभृष्टं ससैन्धवम् । स्वरोपघाते
कासे च लेहमेनं प्रयोजयेत् ॥ २० ॥

अगर, देवदारु और दारुहल्दी इनका काथ बनाकर मन्दोष्णपान करनेसे स्वरभेद नष्ट होता है । अथवा बडीकटेरी, देवदारु, सोंठ और अडूसा इनका काथ पान करनेसे स्वरभेद नष्ट होता है । अथवा खैरसारको तेलमें मिलाकर मुखमें धारण करे, अथवा हरड और पीपलके चूर्णको किम्वा सोंठके चूर्णको अथवा वेरीके पत्तोंके कल्कको घीमें भूनकर सैधानमक मिलाकर स्वरभंग और खांसीमें चाटे ॥ १८ ॥ ॥ १९ ॥ २० ॥

स्वरोपघाते मेदोजे कफवद्विधिरि-
ष्यते । क्षयजे सर्वजे वापि प्रत्याख्या-
माचरेत् क्रियाम् ॥ २१ ॥

मेदजस्वरभेदमें कफजस्वरभेदोक्त चिकित्सा करे, क्षयज और त्रिदोषज स्वरभेदको असाध्य समझकर यथायोग्य चिकित्सा करे ॥ २१ ॥

निदग्धिकादिलेहै ।

निदग्धिकापलशतं तदर्द्धं ग्रन्थिक-
स्य च । चित्रकस्य तदर्द्धञ्च दशमूल-
ञ्च तत्समम् ॥ २२ ॥ द्रोणद्वयेऽपांनिः-
क्वाथ्य कषायाढकमाहरेत् । पूते क्षिपे-
त्तदर्धन्तु पुराणस्य गुडस्य च ॥ २३ ॥
सर्वमेकत्र कृत्वा च लेहवत्साधु सा-
धयेत् । अष्टौ पलानि पिप्पल्यास्त्रि-
जातकपलं तथा ॥ २४ ॥ मरिचानां
पलन्त्वेकं सर्वमेकत्र चूर्णितम् । मधु-
नः कुडवं दत्त्वा तदश्रीयाद्यथानल-
म् ॥ २५ ॥ स्वरभेदहरं मुख्यं प्रति-
श्यायहरं परम् । श्वासकासाग्निमा-
न्द्याशौगुल्ममेहगलामयान् ॥ २६ ॥
आनाहमूत्रकृच्छ्राणि हन्याद्गन्ध्यर्षु-
दानि च ॥ २७ ॥

कटेरी १०० पल, पीपलामूल ५० पल, चीता
२५ पल और दशमूलकी औपधिये २५ पल लेकर
एकद्रोण जलमे पकावे । जब पकते २ एक आढक
जल ङेप रहजाय तब उतारकर छान लेवे । फिर उस
काथमें ५० पल पुराना गुड डालकर माद २ आग्नि
से अवलेहके समान पकावे । जब सिद्ध होजाय तब
पीपलका चूर्ण आठ पल, त्रिसुगन्धि (दालचीनी,
इलायची, तेजगत) का चूर्ण ४ तोले, कालीमिरचो
का चूर्ण १ पल, और शीतल होनेपर शहद १६
तोले डालकर खुब चला देवे, फिर एक चिकने वासन-
मे भरकर रखदेवे । अग्निका बलाबल विचारकर इस
को सेवन करे । यह अवलेह—स्वरभेद, प्रतिश्याय,
श्वास, खांसी, मन्दाग्नि, ववासीर, गुल्म, प्रमेह, गल-
रोग, आनाह, मूत्रकृच्छ्र, ग्रन्थि और अर्बुदरोगको
नष्ट करता है ॥ २२-२७ ॥

शर्करामधुमिश्राणि शृतानि मधुरैः
सह । पिबेत्पयांसि यस्योच्चैर्वदतो-
ऽभिहतः स्वरः ॥ २८ ॥

शर्करा और शहद मिलाकर मधुर औपधियेका
काथ वह पान करे जिसका बहुत जोरसे बोलनेसे
अथवा बहुत बोलनेसे स्वर बैठ गया हो ॥ २८ ॥

वातादिजनितश्वासकासघ्ना ये प्रकी-
र्तिताः । योगास्ताश्चापि युञ्जीत यथा-
दोषं चिकित्सकः ॥ २९ ॥

वातादिजन्य श्वास, और खांसीमे जो औपधि
कही है वे सब यथादोषानुसार स्वरभंगमे भी प्रयोग
करनी चाहिए ॥ २९ ॥

चव्यादिचूर्ण ।

चव्याम्लवेतसकदुत्रयतित्तिडीकं ता-
लीसजीरकतुगादहनैः समांशैः ॥ चू-
र्णं गुडप्रमुदितं त्रिसुगन्धियुक्तं वैस्वर्य-
पीनसकफारुचिषु प्रशस्तम् ॥ ३० ॥

चव्य, अमलवेत, सोठ, मिरच, पीपल, इमली,
तालीसपत्र, जीरा, बगलोचन और चीता ये सब
औपधिये समान भाग लेकर चूर्ण करके गुडमें मिला-
कर और उसमे कुछ त्रिसुगन्धिका चूर्ण डालकर
खाय तो स्वरहीनता, पीनस, कफ और अरुचि दूर
होती है ॥ ३० ॥

कण्टकारिवृत ।

व्याघ्रिस्वरसाविपकं रास्त्रावाद्यालगो-
क्षुरव्योषैः । सर्पिः स्वरपघातं निह-
न्ति कासश्च पञ्चविधम् ॥ ३१ ॥

कटेरीके स्वरसमें रास्त्रा, खिरैटी, गोखरू और
त्रिकुटा इनका फल्क और घृत डालकर घृतको पकावे
यह घृत—स्वरभंग और पांचोंप्रकारकी खासीको दूर
करता है ॥ ३१ ॥

शुष्कद्रव्यमुपादाय स्वरसानामस-
म्भवे । वारिण्यष्टगुणे साध्यं ग्राह्यं पा-
दावशेषितम् ॥ ३२ ॥ स्वरसानां चा-
लाभे चूर्णस्याढकमाढकमुदकस्य च ।
तद्वारि पर्युषितं मृदितं स्वरसवत्प्रयो-
ज्यम् ॥ ३३ ॥

जो किसी द्रव्यका स्वरस न मिले वहां एक भाग
सूखे द्रव्य लेकर आठगुने जलमे पकावे । जब
चौथाई भाग जल ङेप रहजाय तब उसको ग्रहण
करे । अथवा रस न मिलनेपर सूखे द्रव्योका चूर्ण
एक आढक और एक आढक जल लेकर भिगो देवे

जब यह द्रव्य खूब नरम होजाय तब छानकर उसका स्वरस ग्रहण करे ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

हिक्काश्वासे क्षये कासे स्वर्याणि पठितानि तु । सपीषि तानि योज्यानि भिषग्भिः स्वरसंक्षये ॥ ३४ ॥

हिचकी, श्वास, क्षय, खांसी, स्वरके नाश होनेमे जो स्वरको ठीक करनेवाले घृत कहे हैं उनका प्रयोग करै ॥ ३४ ॥

इति श्रीवंगसेने भापाटीकायां स्वरभेदाधिकार सम्पूर्ण ।

अथारोचकाधिकार ।

वातादिभिः शोकभयातिलोभक्रोधैर्मनोग्नाशनरूपगन्धैः । अरोचकाः स्युः परिहृष्टदन्तः कषायवक्रश्च नरोऽनिलेन ॥ १ ॥

वातादिदोष, शोक, भय, अत्यन्त लोभ, क्रोध और मनको विगाडनेवाले आहार, रूप और गन्धको सेवन करनेसे पांच प्रकारका अरोचक रोग उत्पन्न होता है । उसमें वातकी अरुचिमें दात खट्टे और मुख कपैला होता है ॥ १ ॥

कटुम्लमुष्णं विरसञ्च पूति पित्तेन विद्याल्लवणञ्च वक्रम् । माधुर्यपैच्छिल्यगुरुत्वशैत्यविवन्धसम्बन्धयुतं कफेन ॥ २ ॥

पित्तकी अरुचिमें—मुख कटु, गरम, नीरस, दुर्गन्धित और नमकीन होता है । कफकी अरुचिमें—मुख मधुर, लिवालिवा, भारी, जीतल, वंधासा और कफसे लिहसासा होता है ॥ २ ॥

अरोचके शोकभयातिलोभक्रोधाद्यह्यारुचिगन्धजे स्यात् । स्वाभाविकश्चास्यमथारुचिश्च त्रिदोषजेनैकरसं भवेत् ॥ ३ ॥

शोक, भय, अतिलोभ, क्रोधादि, मनको विगाडने वाले पदार्थ और दुर्गन्धित वस्तु इनसे उत्पन्न हुई अरुचिमें मुखका स्वाद स्वाभाविक होता है और

त्रिदोषज अरुचिमें मुखका स्वाद अनेक रसोवाला होता है ॥ ३ ॥

हृच्छूलपीडनयुतं पवनेन पित्तानृद्धदाहशोषबहुलं सकफप्रसेकम् । श्लेष्मात्मकं बहुरुजं बहुभिश्च विद्याद्वैगुण्यमोहजडताभिरथापरञ्च ॥ ४ ॥

वातकी अरुचिमें हृदयमें शूल और पीडा होती है । पित्तकी अरुचिमें तृषा, दाह और अत्यन्त शोष होता है । कफकी अरुचिमें मुखसे बहुत कफ गिरता है, बहुत दोषोकी अरुचिमें अनेकप्रकारकी पीडा होती है । तथा मनव्याकुलता, मोह और जडता ये लक्षण भय शोकादिजन्य अरुचिमें होते हैं ॥ ४ ॥

प्रक्षिप्तन्तु सुखे ह्यन्नं जन्तुर्न खादयेद्यदि । अरोचकः स विज्ञेयो भक्तद्वेषमतः शृणु ॥ ५ ॥ चिन्तयित्वा तु मनसा दृष्ट्वा श्रुत्वा तु भोजनम् । द्वेषं करोति यो जन्तुः स भक्तद्वेष उच्यते ॥ ६ ॥

जो मनुष्य मुखमें दिये हुए अन्नको न खाय अर्थात् वह अन्न उसके मुखमें न चले उसको अरुचि कहते हैं । भोजनको मनमें चितवन करके या देख कर और सुन करके जो भोजनसे द्वेष करता है उसको भक्तद्वेष कहते हैं ॥ ५ ॥ ६ ॥

यस्य चात्रे भवेच्छ्रद्धा स भक्तच्छन्द उच्यते । कुपितस्य भयार्त्तस्य ज्वरितस्य विरोधकः ॥ ७ ॥

क्रोध, भय और ज्वरके विरोधसे जो अन्नपर अश्रद्धा होती है उसको भक्तच्छन्द कहते हैं ॥ ७ ॥

अरुचिचिकित्सा ।

वस्तिः समीरणे पित्ते विरेको वमनं कफे । कुर्याद्द्विद्यालुकूलानि हर्षणञ्च मनोग्नजे ॥ ८ ॥

वातकी अरुचिमें वास्तिकर्म, पित्तकी अरुचिमें विरेचन, कफकी अरुचिमें वमन और मनको विगाडने

महाखाण्डवचूर्ण ।

तालीशोषणचव्यनागलवणैस्तुल्यां-
शकौर्द्विस्ततः कृष्णाग्रन्थिकतित्ति-
डीकहुतभुक्त्वर्जीरकाख्यैर्युतः॥ वि-
श्वैलावदराम्लवेतसधनैर्धान्याजमो-
दायुतैरुद्यंशैर्दाडिमपाद एष विहि-
तः श्रेष्ठः सिताद्धीयुतः॥२९॥ कण्ठा-
स्योदरहृद्विकारशमनः कायाग्निस-
न्दीपनो गुल्माधमानविषूचिकागुदरु-
जाश्वासकृमिच्छर्दिहा ॥ कासारुच्य-
तिसारमूढमरुतां वा हृद्भुजां नाशन-
श्चूर्णोऽयं भिषजामतीव कथितः
ख्यातो महाखाण्डवः ॥ ३०॥

तालीसपत्र, कालीमिरच, चव्य, नागकेशर और
सेधानमक प्रत्येक एक २ तोला, पीपल, पीपलामूल,
समाक, चीतेकी छाल, दालचीनी और जीरा प्रत्येक
दो २ तोले, सोठ, इलायची, वेर, अम्लवेत, नागर-
मोथा, धनिर्यौ और अजमोद प्रत्येक तीन तीन तोले
लेवे । सबका एकत्र चूर्ण करके सब चूर्णसे चौथाई
भाग अनारदाना और मिश्री चूर्णसे आधा लेवे फिर
सबको एकत्र मिलाकर सेवन करे । यह महाखाण्ड-
वचूर्ण—कठ, मुखरोग, उदररोग, हृदयरोग, गुल्म,
आध्मान, विषूचिका, गुदजरोग, श्वास, कृमिरोग,
वमन, खॉसी, अरुचि, अतीसार, मूढवात और हृद-
यरोगको नष्ट करता है । तथा जठराग्निको दीपन
करता है ॥ २९ ॥ ३० ॥

क्षतोक्तन्तु यवान्याद्यं चूर्णमत्र प्रयो-
जयेत् ॥ ३१॥

क्षयरोगमे जो यवान्यादि चूर्ण कहा है वह यहां भी
प्रयोग करना चाहिये ॥ ३१॥

यवानीखाण्डवचूर्ण ।

यवानीं तित्तिडीकश्च नागरं साम्ल-
वेतसम् । दाडिमं बादरश्चाम्लं का-
र्षिकालुपकल्पयेत् ॥ ३२ ॥ धान्यसौ-
वर्चलाजाजीवराङ्गमर्धकार्षिकम् ।
पिप्पलीनां शतञ्चैकं द्वे शते मरिचस्य

च ॥ ३३ ॥ शर्करायाश्च चत्वारि प-
लान्येकत्र चूर्णयेत् । जिह्वाविशोधनं
हृद्यं तच्चूर्णं भक्तरोचकम् ॥ ३४ ॥ ह-
त्पीडापार्श्वशूलघ्नं विवन्धानाहना-
शनम् । कासश्वासहरं प्राहि ग्रहण्य-
शौविकारनुत् ॥ ३५ ॥

अजवायन, समाक, सोठ, अमलवेत, अनारदाना
और खेट्टे वेर प्रत्येक एक २ तोला, धनिर्यौ, कालानमक,
जीरा और दालचीनी प्रत्येक छःछः मासे, पीपल १००
कालीमिरच २०० और खांड ४०० पल लेवे फिर
सबको एकत्र वारीक पीसकर चूर्ण कर लेवे यह
चूर्ण—जिह्वाको शुद्ध करनेवाला, हृदयको हितकारी,
भोजनपर रुचि करानेवाला तथा हृदयकी पीडा,
पार्श्वशूल, विवन्ध, आनाह, खॉसी और श्वासको
हरनेवाला, मलरोधक, संग्रहणी और ववासीरको दूर
करनेवाला है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

लवंगादि चूर्ण ।

लवङ्गकङ्गोलमुशीरचन्दनं नतं सनी-
लोत्पलकृष्णजीरकम् । एला सकृ-
ष्णागुरुभृङ्गकेशरं कणा सविश्वानलदं
सहांबुना ॥ ३६ ॥ कर्पूरजातीफलवं-
शरोचनं सिताष्टभागं समसूक्ष्मचूर्णि-
तम् । सुरोचनं तर्पणमग्निदीपनं बल-
प्रदं वृष्यतमं त्रिदोषनुत् ॥ ३७ ॥ उ-
रोविवन्धं तमकं गलग्रहं सश्वासय-
क्षमारुचिपीनसं तथा । ग्रहण्यतीसा-
रमथासृजः क्षयं प्रमेहरोगश्च निह-
न्ति सत्वरम् ॥ ३८ ॥

लौंग, कंकोल, खस, चन्दन, तगर, नीलोत्पल,
कालाजीरा, इलायची, अगर, दालचीनी, नागकेशर,
पीपल, सोठ, चीता, सुगन्धिवाला, कपूर, जायफल
और वंगलोचन ये सब समान भाग और मिश्री आठ
भाग लेकर सबका एकत्र चूर्ण करे । यह चूर्ण—
रुचिकारक, तृप्तिकारक, अग्निदीपक, बलदायक, अत्य-
न्त वृष्य, त्रिदोषनाशक तथा हृदयरोग, विवन्ध,
तमक, गलग्रह, श्वास, राजयक्ष्मा, अरुचि, पीनस,
संग्रहणी, अतीसार, रुधिरक्षय और प्रमेह रोगको
नष्ट करनेवाला है ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

सूक्ष्मैलादिचूर्ण ।

सूक्ष्मैलापत्रकं त्वक् च पत्रं तालीशज-
न्तुगा । पृथ्वीका जीरकं धान्यं दा-
डिमं चार्द्धकार्षिकम् ॥ ३९ ॥ पिप्प-
ली पिप्पलीमूलं चव्यचित्रकनागरम् ।
मारिचं दीप्यकञ्चैव वृक्षाम्लं चाम्लवे-
तसम् ॥ ४० ॥ अजमोदाश्वगन्धा च
दधित्थं चापि कार्षिकान् । प्रदेया
चौतिशुद्धायाः शर्करायाश्चतुष्पलम्
॥ ४१ ॥ चूर्णमग्निप्रसादं स्यात्परमं
रुचिवर्द्धनम् । प्लीहानं कासमर्शांसि
शूलं श्वासं वमिं ज्वरम् ॥ ४२ ॥ नि-
हन्ति दीपयत्यग्निं बलवर्णप्रदं परम् ।
वातानुलोमनं हृद्यं कण्ठजिह्वाविशो-
धनम् ॥ ४३ ॥

छोटी इलायची, तेजपत्र, दालचीनी, तालीसपत्र
वंशलोचन, बड़ी इलाची, जीरा, धनियाँ और अनार-
रदाना प्रत्येक छ' छः मासे लेवे, पीपल, पीपलामूल,
चव्य, चीता, सोंठ, कालीमिरच, अजवायन, विपां-
विल, अमलेवत, अजमोद, असगन्ध और कैथ प्रत्येक
एक एक तोला और उत्तम सफेद चीनी १६ तोले
लेवे, सबको एकत्र वारिक पीसकर चूर्ण बनावे ।
यह चूर्ण-अग्निको अत्यन्त दपिन करता है और
रुचिकारक, तथा प्लीहा, खॉसी, ववासीर, शूल, श्वास,
वमन और ज्वरको हरनेवाला, तथा अग्नि, बल
वर्णको बढ़ानेवाला, वातको अनुलोमन करनेवाला,
हृदयको हितकारी, कण्ठ और जिह्वाको शुद्ध करने-
वाला है ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

व्याघ्रीघृत ।

व्याघ्रीस्वरसविपकं रास्नाकटफलगो-
क्षुरव्योषैः । सर्पिः स्वराभिघातं ह-
न्यात् कासं च पञ्चविधम् ॥ ४४ ॥

बड़ी कटेरीके स्वरसमे रायसन, कायफल, गोखरू
और त्रिकुटेके कल्कके द्वारा घृतको सिद्ध करे । यह
घृत-स्वरभंग और पांचो प्रकारकी खॉसीको हरता
है ॥ ४४ ॥

इति श्रीबिंसेने भापाटीकायां
अरोचकाधिकार सम्पूर्ण ।

अथ छर्दिरोगाधिकार ।

दुष्टैर्दोषैः पृथक् सर्वैर्बीभत्सालोक-
नादिभिः । छर्दयः पञ्च विज्ञेयास्तासां
लक्षणमुच्यते ॥ १ ॥

दुष्ट हुए वातादिदोषोसे पृथक् २ तीन प्रकारकी,
त्रिदोषसे एक और घृणित पदार्थोंके देखनेसे या
सूँघनेसे अथवा भक्षण करनेसे एक, ऐसे पांच प्रका-
रकी वमन उत्पन्न होती है । अब उनके लक्षण कहते
हैं ॥ १ ॥

अतिद्रवैरतिस्निग्धैरहृद्यैर्लवणादिभिः ।
अकाले चातिमात्रैश्च तथाऽसात्म्यैश्च
भोजनैः ॥ २ ॥ श्रमाद्भयात्तथोद्वेगा-
दजीर्णात्कृमिदोषतः । नाय्याश्वापत्र-
सत्वायास्तथातिद्रुतमश्नतः ॥ ३ ॥ बी-
भत्सैर्हेतुभिश्चान्यैर्द्रुतमुत्कलोशितो ब-
लात् । छादयन्नाननं वेगैर्दयन्नङ्गम-
ञ्जनैः । निरुच्यते छर्दिरिति दोषो व-
क्रं प्रधावति ॥ ४ ॥

अत्यन्त पतले, अत्यन्त चिकने, हृदयको अहित-
कारी और बहुत लवणके पदार्थोंको भक्षण करनेसे,
विना समय भोजन करनेसे, अधिकतर भोजन करनेसे,
असात्म्य (स्वभावके विरुद्ध) भोजन करनेसे, श्रम,
भय, उद्वेग, अजीर्ण और कृमिदोषसे, गर्भवती स्त्रीके
गर्भकी पीडासे, बहुत शीघ्र भोजन करनेसे, तथा
अन्यान्य बीभत्स मुर्दार (ग्लानिकर) कारणोसे,
वातादिदोष अपने स्थानसे भ्रष्ट होकर शीघ्र बलपू-
र्वक अपने वेगोसे मुखको आच्छादित करके और
अगोको तोड़ते हुए किये हुए भोजनको मुखके द्वारा
निकालते हैं इसको छर्दि (वमन) कहते हैं ॥ २ ॥
॥ ३ ॥ ४ ॥

पूर्वरूप ।

हल्लासोद्गारसरोधैः प्रसेको लवण-
स्तनुः । द्वेषोऽन्नपाने च भृशं वमी-
नां पूर्वलक्षणम् ॥ ५ ॥

उबकाईका आना, डकारका रुकना, मुखसे पानी
का गिरना, मुखमे नमककासा स्वाद और अन्नपान-
पर अत्यन्त अरुचि हो ये वमनके पूर्वलक्षण है ॥ ५ ॥

वातच्छर्दिके लक्षण ।

हृत्पार्श्वपीडामुखशोषशीर्षिनाभ्यर्त्ति-
कासस्वरभेदतोदैः । उद्गारशब्दप्रबलं
सफेनं विच्छिन्नकृष्णं तनुकं कषायम्
॥ ६ ॥ क्लृच्छ्रेण वाऽल्पं महता च वेगे-
नार्तोऽनिलाच्छर्द्यतीह दुःखम् ॥ ७ ॥

हृदय और पसलियोमे पीडा, मुखशोष, गिर
और नाभिमे शूलके समान पीडा हो, खॉसी, स्वर-
भेद और तोडने सरीखी पीडा हो, बहुत जोरसे
डकार आवे, झागसहित रुक रुक कर थोड़ी २ काले
रंगकी पतली और कपैली खादवाली वमन होती है
जिसमे अत्यन्त कठिनतासे, बहुत वेगसे थोड़ी वमन
आवे और अत्यन्त दुःख हो ये वातकी छर्दिके लक्षण
जानने ॥ ६ ॥ ७ ॥

असाध्यलक्षण ।

क्षीणस्य या छर्दिरतिप्रवृत्ता सोपद्र-
वा शोणितपृथ्युक्ता । सचन्द्रिकां तां
प्रबद्धन्त्यसाध्यां साध्यां चिकित्सेद-
लुपद्रवाश्च ॥ ८ ॥

क्षीण मनुष्यके अत्यन्त वेगसे बारंबार होनेवाली
उपद्रवयुक्त, रुधिर और राधसहित तथा मोरकी
चन्द्रिकाके समान ऐसी वमन असाध्य है । उपद्रव-
रहित वमनको साध्य समझकर चिकित्सा करनी
चाहिये ॥ ८ ॥

अथ चिकित्सा ।

आमाशयात् क्लेशभवा हि सर्वाः
स्युश्छर्दयो लङ्घनमेव तस्मात् ।
प्रकारयेन्मारुतजां विना तु संशोधनं
वा कफपित्तहारि ॥ ९ ॥

आमाशयमे उत्कृष्टके होनेसे सब प्रकारकी वमन
होती हैं । इस कारण वातकी वमनको छोडकर शेष
छर्दियोमें लंघन कराना अथवा कफपित्तनाशक
जुल्लाव देना चाहिये ॥ ९ ॥

ससैन्धवं पिबेत्सर्पिर्वातच्छर्दिनिवार-
णम् । लवणत्रययुक्तेन संयुक्तं त्र्युषणेन
च । हन्यात्क्षीरोदकं पीतं छर्दि पवन-
सम्भवाम् ॥ १० ॥

सैधानमक और घीको मिलाकर सेवन करनेसे
वातकी वमन दूर होती है । तीनों लवण और त्रिकुटेके
चूर्णको दूध और जलके साथ पान करनेसे वातकी
वमन दूर होती है ॥ १० ॥

मुद्गामलकयूषं वा ससर्पिष्कं ससै-
न्धवम् । यवागूं मधुमिश्रां च पञ्चमू-
लीश्रुतां पिबेत् ॥ ११ ॥

मूंग और आमलेके यूपको घी या सैधेनमकमे
मिलाकर पान करे, अथवा पंचमूलके काथके द्वारा
यवागू बनाकर शहद मिलाकर पान करे ॥ ११ ॥

धान्याकविश्वदशमूलकषायसिद्धान्
यूषारसान् पवनवन्धरुचिप्रशान्तये ।
पीत्वा सुखानि लभते मधुभिः
श्रितं वा शङ्खाह्वया स्वरसमूषणचू-
र्णयुक्तम् ॥ १२ ॥

धानियां, सोंठ और दशमूल इनके काथके द्वारा
रस अथवा यूपको बनाकर वातकी वमन और अरु-
चिको दूर करनेके लिये पान करे, अथवा शंखाहुली
के स्वरसमें कालीमिरचका चूर्ण डालकर पान करे
तो सुख होता है ॥ १२ ॥

पित्तच्छर्दिके लक्षण ।

मूर्च्छापिपासामुखशोषमूर्द्धतालवाक्षि-
संतापतमोभ्रमार्तः । पीतं भृ-
शोष्णं हरितं सतिक्तं धूम्रश्च पित्तन
वमेत्सदाहम् ॥ १३ ॥

मूर्च्छा, तृपा, मुखका सूखना, शिर, तालु और
नेत्रोमें सन्ताप हो, भ्रमहो, पीला, अत्यन्त गरम, हरा,
कडवा, धुंयेके रंगका और दाहयुक्त ऐसे पित्तको
वमन करे, यह पित्तकी छर्दिके लक्षण जानने ॥ १३ ॥

चिकित्सा ।

छर्द्या पित्तोद्भवायान्तु श्लक्ष्णकुम्भो-
द्भवं रजः । मृद्गीकेशुविदारिणीं रसो
रेकाय शस्यते ॥ १४ ॥

पित्तकी वमनमे घडेकी मिट्टीको वारीक पीसकर
दाख, ईख और विदारीकन्द इनके रसमे मिलाकर
पीवे तो पित्तकी वमन दूर होती है ॥ १४ ॥

पित्तोपशमनीयानि योज्यानि च
हितानि च । कषाययूषकल्कानि
घ्नन्ति पित्तोत्तरं वमिम् ॥ १५ ॥

पित्तकी वमनमे पित्तको शमन करनेवाले और
पित्तमे हितकारक काथ, यूप और कल्क प्रयोग करे १५

लाजामसूरयवमुद्भकृता यवागूः छ-
र्द्या हिता मधुयुता बहुपित्तजायाम् ।
यूषाः सुगन्धिमधुतिकरसप्रगाढामृ-
द्भृष्टलोष्ठभवमंबुहितं तृषायाम् ॥ १६ ॥

खीले, ममूर, जौ और मूंग इनकी येवागू बनाकर
शहद डालकर अधिक पित्तकी छर्दिमे पानकरे, सुग-
न्धित पदार्थ, मधुर द्रव्य और तिक्त पदार्थ इनका
यूप या मांड पान करे और तृपाको शान्त करनेके
के लिये मिट्टीको अग्निमे तपाकर शीतल जलमे बुझा
कर उस जलको पान करे ॥ १६ ॥

तृड्दाहपित्तबहुलेषु वमीगतेषु द्राक्षा-
रसं पिबति माक्षिकसंयुतञ्च ॥ १७ ॥

तृपा और दाहयुक्त ऐसी पित्तकी वमनमे दाखके
रसको शहद मिलाकर पान करे ॥ १७ ॥

सोदीच्यं गैरिकं पेयं सेव्यं वा तंडु-
लांबुना । शीतं धात्रीरसाद्यं वा पि-
त्तच्छर्दिनिवृत्तये ॥ १८ ॥

सुगन्धवाला और गेरू इनको चावलोके जलमे
पीसकर अथवा आमलेके शीतल रसमे मिलाकर पान
करनेसे पित्तकी वमन शमन होती है ॥ १८ ॥

चन्दनेनाक्षमात्रेण संयोज्यामलकी-
रसम् । पिबेन्माक्षिकसंयुक्तं छर्दिस्ते-
न निवार्यते ॥ १९ ॥

एक तोला चन्दनको आमलोंके रसमें पीसकर
शहद मिलाकर पान करे तो वमन दूर होती है १९॥
चन्दनश्च मृणालश्च बालकं तगरं वृष-
म् । सतण्डुलोदकक्षौद्रः कल्कः पी-
तो वमिं जयेत् ॥ २० ॥

चन्दन, कमलकी नाल, सुगन्धवाला, तगर, अड्डसा
इनका कल्क बनाकर चावलोंके जलके साथ शहद
मिलाकर पीवे तो वमन दूर होती है ॥ २० ॥

कषायो भृष्टमुद्गस्य सलाजमधुशर्क-
रः । छर्द्यतीसारतृड्दाहज्वरघ्नः सं-
प्रकाशितः ॥ २१ ॥

भुनीहुई मूंगके काथमे खीले, शहद और मिश्री मि-
लाकर पान करनेसे वमन, अतीसार, तृपा, दाह और
ज्वर नष्ट होता है ॥ २१ ॥

काथः पर्पटजः पीतः सक्षौद्रः छर्दि-
नाशनः ॥ २२ ॥

पित्तपापडेके काथमे शहद डालकर पान करनेसे
वमन दूर होती है ॥ २२ ॥

हरीतकीनां चूर्णन्तु लिह्यान्माक्षि-
कसंयुतम् । अधोभागीकृते दोषे छर्दिः
शीघ्रं निवर्तते ॥ २३ ॥

हरदके चूर्णको शहदमे मिलाकर चाटे तो दोषो
के अधोभागमे जानेसे वमन शीघ्र बंद होजाती
है ॥ २३ ॥

गुडूचीत्रिफलानिम्बपटोलैः कथितं
पिबेत् । क्षौद्रयुक्तं निहन्त्याशु छर्दिं
पित्ताम्लसम्भवाम् ॥ २४ ॥

गिलोय, त्रिफला, नीम और पटोलपत्र इनके काथमे
शहद डालकर पीनेसे अम्लपित्तसे उत्पन्न हुई वमन
दूर हांती है ॥ २४ ॥

सिताचन्दनमध्वक्तं लिहेद्रा मक्षि-
काशकृत् । सोपद्रवा पित्तभवा छर्दि-
रेतेन शाम्यति ॥ २५ ॥

मिश्री, चन्दन और शहद इनको एकत्र करके
मक्खीकी विष्टा मिलाकर सेवन करनेसे उपद्रव पित्तकी वमन दूर होती है ॥ २५ ॥

सर्पिः क्षौद्रसितोपेतान् लाजसक्तून्
पिबेत्तथा । पित्तच्छर्दिश्च तेनाशु प्र-
शाम्यति सुदुस्तरा ॥ २६ ॥

बी, गहद, मिश्री और खिलोके सक्तु इनको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे दुस्तर पित्तकी वमन दूर होती है ॥ २६ ॥

कफच्छर्दिके लक्षण ।

तन्द्रास्यमाधुर्यकफप्रसेकसन्तोषनि-
द्रारुचिगौरवार्त्तः । स्निग्धं घनं स्वादु
कफाद्विशुद्धं सलोमहर्षोऽल्परुजं वमे-
त्तु ॥ २७ ॥

तन्द्रा, मुखमें मधुरता, मुखके द्वारा कफका गिरना, सन्तोष, निद्रा, अरुचि, भारीपन, चिकना, गाढा, मीठा और शुद्ध ऐसा कफ वमनमें गिरना, रोमांच और अल्प पीडाका होना ये लक्षण कफकी छर्दिमें होते हैं ॥ २७ ॥

चिकित्सा ।

छर्द्या कफोद्भवायान्तु वमनं योजये-
द्विषक् । तोयैः सर्षपसिन्धूत्थाहिंशुनि-
म्बकणायुतैः ॥ २८ ॥

कफसे उत्पन्न हुई वमनमें सरसो, सैधानमक, हींग, नीमकी छाल और पीपल इनके काथके द्वारा वमन करावे ॥ २८ ॥

शस्यन्ते शालिगोधूमयवमुद्गमकुष्ठ-
काः । तक्रकाञ्जिकयूषाश्च पटोला-
द्याश्च भोजने ॥ २९ ॥

गालिचावल, गेहूँ, जौ, मूँग और मोठ इनका यूप तक्र, कांजी सहित और पटोलादिका यूप भोजनके लिए देवे ॥ २९ ॥

आरग्वधादिनिर्यूहं दशाङ्गं योग्यमेव
च । पाययेन्मधुसंयुक्तं कफच्छर्दिवि-
नाशनम् ॥ ३० ॥

आरग्वधादि निर्यूह और दशांगकाथमें शहदमिला कर सेवन करनेसे कफकी वमन दूर होती है ॥ ३० ॥

मनःशिलायाः फलपूरकस्य रसैः क-
पित्थस्य च पिप्पलीनाम् । क्षौद्रेण
चूर्णं मरिचैश्च युक्तं लि कफच्छर्दि-
मुदीर्णवगम् ॥ ३१ ॥

मैनगिल, विजौरे नींबूका रस, कैथका रस, पीपलका चूर्ण और कालीमिरचोका चूर्ण उन सबको एकत्र गहदमें मिलाकर सेवन करनेसे कफकी वमन गमन होती है ॥ ३१ ॥

विडङ्गत्रिफलाविश्वाचूर्णं मधुयुतं ज-
येत । विडङ्गप्लक्षशुङ्गानामथवा श्ले-
ष्मजां वमिम् ॥ ३२ ॥

वायविडंग, त्रिफला और सोठ इनका एकत्र चूर्ण करके गहदमें मिलाकर सेवन करे अथवा विडंग पिलखनके अकुरोको पीसकर शहदमें मिलाकर चाटनेसे कफकी वमन दूर होती है ॥ ३२ ॥

सजाम्बवं वा बदरस्य चूर्णं मुस्तायु-
तं कर्कटकस्य शृङ्गम् । डुरालभं वा म-
धुसंप्रयुक्तं लिहेत्कफच्छर्दिविनिग्रहा-
र्थम् ॥ ३३ ॥

जामुन, बेर, नागरमोथा, काकडाशिगी और धमासा इनका एकत्र चूर्ण करके शहद मिलाकर सेवन करे तो कफकी वमन दूर होती है ॥ ३३ ॥

त्रिदोषजच्छर्दि ।

शूलाविपाकारुचिदाहृत्पणा श्वास-
अमेहप्रबलाप्रसक्तम् । छर्दिस्त्रिदोषा-
ल्लवणाम्लनालं सान्द्रोष्णरक्तं वमतां
नृणां स्यात् ॥ ३४ ॥

शूल, अजीर्ण, अरुचि, दाह, तृषा, श्वास, मोह और भत्यन्त आसक्तता हो, तथा नमकीन, खट्टी, नीली, गाढी, गरम और लालरंगकी वमन हो, ये त्रिदोष वमनके लक्षण है ॥ ३४ ॥

असाध्यलक्षण ।

विट्स्वेदमूत्राम्बुवहानि वायुःस्रोतां-
सि संरुध्य यदोर्ध्वमेति । उत्पन्नदो-
षस्य समाचितन्तु दोषं खमुद्भूय नर-
स्य कोष्ठत् ॥ ३५ ॥ विण्मूत्रयोस्त-

त्समगन्धवर्णं तृट्श्वासकासार्त्तियुतं
प्रसक्तम् । प्रच्छर्दयेद्द्रुष्टमिहातियोगा-
त्तयार्दितश्चाशु विनाशमेति ॥ ३६ ॥

जब वायु मल, मूत्र और पसीनेको रोक करके उर्ध्वगतिको प्राप्त होती है तब ऊपर आनेवाले दोषो-
को कोठेके बाहर निकाल कर वमन कराती है उस
वमनकी मलमूत्रके समान गंध और उनके ही समान
वर्ण होता है । तृपा, श्वास और खासीकी पीडा हो,
बहुत जोरसे दुर्गन्धित, द्रुष्ट वमन करे, इस वमनसे
पीडित मनुष्य शीघ्रही मरजाता है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

चिकित्सा ।

पिष्ट्वा धात्रीफलं द्राक्षां शर्कराश्च पलो-
न्मिताम् । दत्त्वा मधुपलश्चैव कुडवं
सलिलस्य च । वाससा गालितं पीतं
हन्तिच्छर्दिं त्रिदोषजाम् ॥ ३७ ॥

आमले, दाख और सफेद खाण्ड तथा शहद ये
प्रत्येक एक २ पल लेकर १६ तोले जलमें पीसकर
बखमें छानकर पान करनेसे त्रिदोषजन्य वमन शमन
होती है ॥ ३७ ॥

मसूरसक्तवः क्षौद्रं मर्दिता दाडिमाम्भ-
सा । पीता निवारयत्याशु छर्दिं दोष-
त्रयोद्भवाम् ॥ ३८ ॥

मसूरके सत्तुओको अनारके रसमें मर्दन करके
शहद मिलाकर पीनेसे त्रिदोषजन्य वमन शमन
होती है ॥ ३८ ॥

श्रीफलस्य गुडूच्या वा कषायो मधु-
संयुतः। पेयश्छर्दित्रये शीतो मूर्वा वा
तण्डुलाम्बुना ॥ ३९ ॥

धेल अथवा गिलोयके काथमे शहद मिलाकर
पीनेसे अथवा मूर्वाको चावलके जलमे पीसकर
पीनेसे त्रिदोषकी वान्ति शान्त होती है ॥ ३९ ॥

समाक्षिका मधुरसा पीता वा तण्डु-
लाम्भसा । तर्पणं वा मधुयुतं तिसृ-
गामपि भेषजम् ॥ ४० ॥

मूर्वाको शहतके साथ पीसकर पीनेसे अथवा
शहद युक्त तृप्तिकारक पदार्थ त्रिदोषजन्य वमन-
नाशक है ॥ ४० ॥

कृतं गुडूच्या विधिवत्कषायं हिमसं-
ज्ञितम् । तिसृष्वपि भवेत्पथ्यं माक्षि-
केण समन्वितम् ॥ ४१ ॥

गिलोयका विधिपूर्वक हिम बनाकर शहद मिला-
कर सेवन करे तो त्रिदोषजनित वमन दूर होती है ४१

युक्ताम्ललवणः पिष्ट्वा उष्णवीर्योऽथ-
वा हितः ॥ ४२ ॥

खटाई और लवणको एकत्र पीसकर उष्ण वीर्य
वाले पदार्थके साथ सेवन करनेसे वमन दूर होती है ४२

एलालवङ्गजकेशरकोलमज्जलाजा-
प्रियङ्गुघनचन्दनपिप्पलीनाम् । चूर्णं
सितामधुयुतं मतुजो विलिह्य चर्दिं
निहन्ति कफमारुतपित्तजां च ॥ ४३ ॥

इलायची, लौंग, नागकेशर, बेरकी मींग, खीले,
फूलप्रियंगु, नागरमोथा, लालचन्दन और पीपल इन
सबको एकत्र पीसकर मिश्री और शहद मिलाकर
सेवनकरे तो कफ, वात और पित्तजन्य वमन दूर
होती है ॥ ४३ ॥

कोलमज्जाकणाधात्रीलाजाविश्वफ-
लत्रिकम् । श्याभाञ्जनाब्दकौलित्थं
माक्षिकाविट्सितायुतम् ॥ ४४ ॥ कणो-
षणकपित्थन्तु त्वगेलापत्रकं समम् ।
सक्षौद्राः पादिकालेहाः षडेते छर्दि-
नाशनाः ॥ ४५ ॥

(१) बेरकी मींग, पीपल और आमले (२)
खीले. सोठ और त्रिफला (३) सारिवा, अञ्जन और
कुलथी (४) मक्खलीकी चिटा और मिश्री (५)
पीपल, मिर्च और कैथका गूदा (६) दालचीनी,
इलायची, तेजपात, इन छ योगोमसे किसी एक यागको
पीसकर शहद और मिश्री मिलाकर सेवन करनेसे
वमन दूर होती है ॥ ४४—४५ ॥

कोलामलकमज्जानौ माक्षिकाविट्
सितामधु । सकृष्णातण्डुलो लेहः
छर्दिमाशु नियच्छति ॥ ४६ ॥

बेर और आमलेकी मज्जा, मक्खलीकी चिटा, मिश्री,
शहत और पीपलके चावल, इन सबको एकत्र
मिलाकर चाटनेसे सब प्रकारकी वमन शान्त होती
है ॥ ४६ ॥

लाजाकपित्थमधुमागधिकोषणानां-
क्षौद्राभयात्रिकटुधान्यकजीरकाणाम्।
पथ्याऽमृतामरिचमाक्षिकपिप्पलीनां
लेहास्त्रयः सकलवम्यरुचिप्रशा-
न्त्यै ॥ ४७ ॥

खीले, कैथ, शहद, पीपल और काली मिरच इनका अवलेह अथवा गहद, हरड, त्रिकुटा, धनियां और जीरा इन सबका अवलेह अथवा हरड, गिलोच, काली मिरच, गहद और पीपल इनका बनायाहुआ अवलेह सब प्रकारकी वमन और अरुचिको दूर करता है ॥ ४७ ॥

मनःशिलादि लेह ।

मनःशिलामागधिकोषणानां चूर्ण क-
पित्थाम्लरसेन युक्तम् । लाजैः समां-
शैर्मधुनावलीढं छर्दिं प्रसक्तामसकृ-
त्रिहन्ति ॥ ४८ ॥

मैनागिल, पीपल और काली मिरच इन सबको समान भाग लेवे और सबके बराबर खीले लेवे सबको एकत्र पीसकर कैथ और नीबूके रसमें मिलाकर गहद डालकर सेवन करनेसे तत्काल सब प्रकारकी वमन दूर होती है ॥ ४८ ॥

अश्वत्थवल्कलं शुष्कं दग्धं निर्वापितं
जले । तज्जलं पानमात्रेण छर्दिं जय-
ति दुर्जयाम् ॥ ४९ ॥

पीपलवृक्षकी सूखी छालको जलाकर जलमें घुंझा-
कर उस जलको छानकर पीनेसे तत्काल दुस्तर
वमन दूर होती है ॥ ४९ ॥

जात्या रसः कपित्थस्य पिप्पलीमरि-
चान्वितः । क्षौद्रेण युक्तः शमयेह्ये-
होऽयं छर्दिमुल्बणाम् ॥ ५० ॥ अ-
त्र जातीशब्देन धात्र्याः ग्रहणम् ।

आमलेका रस, कैथका गूडा, पीपल और काली
मिरच इन सबको एकत्र पीसकर गहद मिलाकर
सेवन करनेसे दुस्तर वमन दूर होती है ॥ ५० ॥

निम्बाम्रपल्लवगवेधुकधान्यमेवं द्विवेर-
वारिमधुना पिबतोऽल्पमल्पम् । छर्दिः
प्रयाति शमनं त्रिसुगन्धियुक्ता ली-

ढा निहन्ति मधुना सदुरालभा
वा ॥ ५१ ॥

नीम और आमके कोमल पत्ते, गरहेड, धनियां
और सुगन्धवाला इनका काथ बनाकर गहद मिला-
कर सेवन करनेसे वमन दूर होती है अथवा धमासा
और त्रिसुगन्धि इनका काथ बनाकर गहद मिलाकर
सेवन करनेसे वमन शमन होती है ॥ ५१ ॥

विदलानि च मुद्गानां पिप्पल्यश्चैव
कुट्टिताः । आशु तत्सलिलं पेयं सम-
धु च्छर्दिनाशनम् ॥ ५२ ॥

भूगकी दालको जलमें औटाकर पीपलका चूर्ण
डालकर गहद मिलाकर सेवन करनेसे शीघ्र ही
वमन दूर होती है ॥ ५२ ॥

तण्डुलीययुतं खोदित्कपित्थं त्र्यूषणेन
वा । सौवर्चलमजाज्यश्च पिप्पली-
मरिचानि च । युक्तोऽयं मधुना ले-
हः श्रेष्ठश्छर्दिनिवारणः ॥ ५३ ॥

मातुलुङ्गरसो लाजाशर्करामधुसंयु-
तः । पिप्पलीचूर्णसंयुक्तः श्रेष्ठश्छर्दि-
निवारणः ॥ ५४ ॥

चौलाईको कैथके जलमें मिलाकर अथवा त्रिकु-
टेको कैथके रसमें मिलाकर सेवन करनेसे, या काला
नमक, जीरा, पीपल और कालीमिरच इनको पीस-
कर शहद मिलाकर चाटनेसे वमन दूर होती है ।
विजौरैका रस, खीले, खांड, शहद इन्होको पीपलके
चूर्णसे युक्त कर पीनेसे छर्दि निवृत्त होती है ५३ ॥ ५४ ॥

कृष्णोषणसिताचूर्णं लाजतुल्यं समा-
क्षिकम् । कपित्थबीजपूराम्लकालिकतं
छर्दिनाशनम् ॥ ५५ ॥

पीपल, कालीमिरच और मिश्री ये सब समान
भाग और सबकी बराबर खीले लेवे, सबको एकत्र
पीसकर शहद मिलाकर कैथ और विजौरै नीबूके
रसमें मिलाकर सेवन करनेसे वमन दूर होती
है ॥ ५५ ॥

प्रियंग्वंजनमुस्तानि पाययेत्तु यथाब-
लम् । तृष्णातिसारच्छर्दिघ्नं सक्षौद्रतं-
डलाम्बुना ॥ ५६ ॥

फूलप्रियंगु, अंजन और नागरमोथा इन सबको एकत्र पीसकर गृहद और चावलेके जलके साथ मिलाकर अग्निके बलानुसार सेवन करनेसे तृपा, अतीसार और वमन दूर होती है ॥ ५६ ॥

आम्रास्थिविल्वनिर्यूहः पीतः समधु-
शर्करः । निहन्याच्छर्द्यतीसारं वैश्वा-
नर इवाहुतिम् ॥ ५७ ॥

आमकी गुठली और बेलगिरी इनके काथमें गृहद और मिश्री डालकर सेवन करनेसे वमन और अती-
सार दूर होता है ॥ ५७ ॥

जम्बाम्लपल्लवशतं क्षौद्रं दत्त्वा सुशी-
तलं सलिलम् । लाजैरवचूर्ण्य पिवे-
च्छर्द्यतिसारे परं सिद्धम् ॥ ५८ ॥

जामुन और आमके कोमल सौ पत्ते लेकर उनको शीतल जलमें पीसकर खीलोंका चूर्ण और गृहद मिलाकर पान करनेसे वमन और अतीसार दूर होता है ॥ ५८ ॥

पद्मकादिवृत ।

पद्मकामृतनिम्बानां धान्यचन्दनयोः
पचेत् । कल्के काथे च हविषः प्रस्थं
छर्दिनिवारणम् ॥ ५९ ॥ तृष्णारुचि-
प्रशमनं दाहज्वरहरं परम् ।

पद्माख, गिलोय, नीम, धनियाँ और चन्दन इनके काथ और कल्कके द्वारा एक प्रस्थ घृतको पकावो यह घृत—वमन, तृपा, अरुचि और दाहज्वरको दूर करता है ॥ ५९ ॥

कल्याणकऋषूषणजीवकानि घृतानि
देयानि तु छर्दिरोगे ॥ ६० ॥

कल्याणघृत, ऋषूषणादिवृत और जीवकाघृतको भी वमनमें प्रयोग करना चाहिए ॥ ६० ॥

आगन्तुजच्छर्दिनिदान ।

बीभत्सजा दौहदजामजा च ह्यसा-
त्म्यतो वा कृमिजा च या हि । सा
पञ्चमी ताश्च विभावयेद्वै दोषोच्छ-
येनेव यथोक्तमादौ ॥ ६१ ॥

ग्लानिकारक पदार्थों, रुधिर, राध, विष्टा आदि को देखनेसे, गर्भवती स्त्रीके दोहदके उत्पन्न होनेसे,

अजीर्णके होनेसे, स्वभावविरुद्ध भोजन करनेसे और कृमिरोगके होनेसे पांचवी अगन्तुज छर्दि उत्पन्न होती है इस छर्दिमें भी पूर्वोक्त वातादि दोषोंका निश्चय करना चाहिये ॥ ६१ ॥

शूलहृत्सासबहुला कृमिजा च विशेष-
षतः । कृमिहृद्रोगतुल्येन लक्षणेन
च लक्षिता ॥ ६२ ॥

विशेषकर कृमिजन्य छर्दिमें शूल और अधिक उबकाई आती है और कृमिज हृदयरोगके लक्षण भी होते हैं ॥ ६२ ॥

चिकित्सा ।

बीभत्सजामबीभत्सैर्हेतुभिः संहरे-
द्वभिम् । दौहदोत्थां वमिं हृद्यैः कां-
क्षितैर्वस्तुभिर्जयेत् ॥ ६३ ॥

ग्लानिकारक पदार्थोंसे उत्पन्न हुई वमनको उत्तम पवित्र स्वच्छ, आनन्दजनक और चित्तको प्रसन्न करनेवाले पदार्थोंसे जीते, और दोहदजन्य वमनको मनोवाञ्छित और हृदयको प्रिय पदार्थोंसे दूर करे ॥ ६३ ॥

लङ्घनैर्वमनैर्वापि सात्म्यैर्वा सात्म्य-
सम्भवाम् । कृमिहृद्रोगवच्चापि सा-
ध्येत्कृमिजां वमिम् ॥ ६४ ॥

स्वाभावविरुद्ध पदार्थोंसे उत्पन्न हुई वमनको लंघन वमन और स्वभाव अनुकूल पदार्थोंसे जीते, और कृमिजन्य वमनको कृमि एवं हृदयरोगोक्त चिकित्सासे जीते ॥ ६४ ॥

यथादोषश्च वितरेच्छस्तं विधिमन-
न्तरम् । पवनघ्नी चिरोत्थासु प्रयो-
ज्या छर्दिषु क्रिया ॥ ६५ ॥

यथादोषानुसार यथोक्त विधिसे उपचार करे और बहुत दिनोंकी पुरानी वमनमें वातनाशक चिकित्सा करे ॥ ६५ ॥

छर्दितृषाचिकित्सा ।

फलगुप्रवालं छिन्नाया मधुकं नील-
मुत्पलम् । क्षुण्णैः शीतकषायोऽयं तृ-
ष्णाछर्दिनिवारणः ॥ ६६ ॥

कटूमरके अंकुर, गिलेय, मुलैठी और नीलकमल इनका काथ बनाकर शीतल करके पीनेसे तृषा और वमन शमन होती है ॥ ६६ ॥

**एतैरवोषैधैः सिद्धां लाजपेयां पिवे-
न्नरः । सशर्करां समाक्षीकां तृष्णा-
च्छर्दिनिवारणाम् ॥ ६७ ॥**

अथवा इन्हीं औषधियोंके द्वारा खीलोकी पेया बनाकर उसमें मिश्री और शहद डालकर सेवन करनेसे तृषा और वमन दूर होती है ॥ ६७ ॥

**आभ्रजम्बुकषायं वा पिवेन्माक्षि-
कसंयुतम् । छर्दिं सर्वां प्रणुद्दति तृ-
ष्णाश्चैवापकर्षति ॥ ६८ ॥**

आम और जामुनका काथ बनाकर उसमें गहद मिलाकर सेवन करनेसे सर्व प्रकारकी वमन और तृषा दूर होती है ॥ ६८ ॥

**वटशुङ्गं सितालोध्रं दाडिमं मधुकं
मधु । पिवेत्तंडुलतोयेन च्छर्दितृष्णा-
निवारणम् ॥ ६९ ॥**

वडके अंकुर, मिश्री, लोध, अनार, मुलैठी और शहद इन सबको एकत्र मिलाकर चावलोके जलके साथ पान करनेसे वमन और तृषा दूर होती है ॥ ६९ ॥

**ओदनं रक्तशालीनां शीतं माक्षि-
कसंयुतम् । भोजयेत्तेन शाम्येत च्छ-
र्दितृष्णे चिरोत्थिते ॥ ७० ॥**

लालगालि चावलोके भातकां गहदके साथ खाने से बहुत दिनोंकी पुरानी वमन और तृषा शांत होती है ।

**महाकल्याणकं सर्पिः कल्याणकम-
थापि वा । शतावरीघृतं वापि तृ-
ष्णाच्छर्दिनिवारणम् ॥ ७१ ॥**

महाकल्याणघृत, कल्याणघृत और शतावरीघृत, ये सब तृषा और वमनको दूर करते हैं ॥ ७१ ॥

उपद्रव ।

**कासश्वासो ज्वरस्तृष्णा हिक्का वैचि-
त्यमेव च । हृद्रोगस्तमकश्चैव ज्ञेया-
श्छर्दरूपद्रवाः ॥ ७२ ॥**

श्वास, खाँसी, ज्वर, तृषा, हिचकी, अचेत, हृद्य-
रोग और तमक (अंधकारदर्शन) ये सब छर्दिके
उपद्रव हैं ॥ ७२ ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां छर्द्य-
धिकार संपूर्ण ।

अथ तृषारोगाधिकार ।

**भयश्रमाभ्यां बलसंक्षयाद्वा ऊर्ध्व-
चित्तं पित्तविवर्द्धनैश्च । पित्तं सवातं
कुपितं नराणां तालुप्रसन्नं जनये-
त्पिपासाम् ॥ १ ॥**

भय और परिश्रमके होनेसे, बलके क्षय होनेसे तथा पित्तको बढ़ानेवाले द्रव्योंसे संचित हुआ जो पित्त वह कुपित होकर वायुको साथ लेकर ऊर्ध्वगतिको प्राप्त होकर तालुमें जाकर तृषाको उत्पन्न करता है ॥ १ ॥

**स्रोतःस्वपांवाहिषु दूषितेषु दोषै-
श्च तृट् सम्भवतीह जन्तोः । तिस्रः
स्मृतास्ताः क्षतजा चतुर्थी क्षयात्त-
था ह्यामसमुद्भवा च ॥ २ ॥ भक्तो-
द्भवा सप्तमिकेति तासां निबोध
लिङ्गान्यनुपूर्वशस्तु ॥ ३ ॥**

जलके वहनेवाले जो स्रोत हैं जब वे दोषोंसे दूषित होते हैं तब मनुष्यके तृषा उत्पन्न होती है वह पृथक् २ दोषोंसे तीन प्रकारकी, क्षतज चौथी, क्षयज पांचवी, आमज छठी और अन्नज सातवीं इन भेदोंसे सात प्रकारकी होती है अब इनके क्रमसे लक्षण कहते हैं ॥ २ ॥ ३ ॥

वातजतृषानिदान ।

**क्षामास्यता भारुतसम्भवायां तो-
दस्तथा शङ्खशिरस्सु चापि । स्रोतो-
निरोधो विरसश्च वक्रं शीताभिर-
द्भिश्च विवृद्धिमोति ॥ ४ ॥**

वातकी तृषामें मुख मलिन होजाता है कनपटी और शिरमें तोड़ने सरीखी पीड़ा होती है शरीरके स्रोतोंक

अबरोध, तथा मुखमें विरसता होती है और वह शीतल जलको पीनेसे बढती है ॥ ४ ॥

पित्तजतृषाके लक्षण ।

मूर्च्छान्नविद्वेषविलापदाहरत्केक्षणत्वं-
प्रततश्च शोषः । शीताभिनन्दा
मुखतिक्तता च पित्तात्मकायां मुख-
धूमनश्च ॥ ५ ॥

मूर्छा, अरुचि, प्रलाप (वृथा वक्तावद), दाह, नेत्रोंमें लाली, अत्यन्त शोष, शीतकी इच्छा, मुखमें कड़वापन और मुखमेंसे धुआँसा निकलना ये लक्षण पित्तकी तृषामें होते हैं ॥ ५ ॥

वाष्पावरोधात्कफसंवृतेऽथौ तृष्णाब-
लासेन भेवत्तथा तु । निद्रागुरुत्वं म-
धुरास्यता च तृष्णार्दितः शुष्यति
चातिमात्रम् ॥ ६ ॥

जब कफ कुपित होकर जठराग्निको आच्छादित करके तृषाको उत्पन्न करता है, उस समय जब वाफ उपरको तो नहीं जा सकती तब नीचेको ही जाकर जलकी बहनेवाली नाडियोंको तपाकर तृषाको उत्पन्न करता है । कफकी तृषामें—अधिक निद्राका आना, भारीपन, मुखमें मधुरता होती है और वह मनुष्य दिनपर दिन सूखता जाता है ॥ ६ ॥

क्षतजतृषाके लक्षण ॥

क्षतस्य रुक् शोणितनिर्गमाभ्यां तृ-
ष्णा चतुर्थी क्षतजा मता तु ॥ ७ ॥

घावके होनेसे जो पीडा और रुधिर स्रवता है तब तृषा उत्पन्न होती है इसको चौथी क्षतज तृषा कहते हैं ॥ ७ ॥

क्षयजतृषाके लक्षण ।

रसक्षयाद्या क्षयसम्भवा सा तथाभि-
भूतस्तु निशादिनेषु । पेपीयतेऽम्भः
समुखं न याति तां सन्निपातादिति
केचिदाहुः । रसक्षयोक्तानि च
लक्षणानि तस्यामशेषेण भिषग्
व्यवस्येत् ॥ ८ ॥

रसके क्षय होनेसे जो तृषा होती है उसको क्षयजा कहते हैं । इसमें पीडित मनुष्य वारंवार रातदिन जल पीनेसे भी तृप्त नहीं होता है । कोई २ आचार्य्य इसको सन्निपातिकतृषा भी कहते हैं । उसमें रस-क्षयके सब लक्षण अच्छे प्रकार जानकर चिकित्सा करे ॥ ८ ॥

आमजाके लक्षण ।

त्रिदोषलिङ्गामसमुद्रवा च हृच्छूल-
निष्ठीवनसादकर्त्री ।

आमकी तृषामें तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं । हृदयमें शूल, वारंवार थूकना और शरीरमें शिथिलता होती है ।

अन्नजाके लक्षण ।

स्निग्धं तथा म्लं लवणश्च भुक्तं गुर्वन्नमे-
वाशु तृषां करोति ॥ ९ ॥

चिकने, खट्टे, नमकीन और भारी अथवा मात्रा-धिक भोजन करनेसे मनुष्योंके जो तृषा उत्पन्न होती है उसको अन्नजा कहते हैं ॥ ९ ॥

उपसर्गजाके लक्षण ।

हीनस्वरः प्रताम्यन् दीनाननशु-
ष्कहृदयगलतालुः । भवति खलु सोप-
सर्गात्तृष्णा सा शोषिणी कष्टा ॥ १० ॥
ज्वरमोहक्षयकासश्वासाद्युपसृष्टदेहा-
नाम् । सर्वास्त्वतिप्रसक्ता रोगकृशा-
नां वमिप्रसक्तानाम् । घोरौपद्रवयुक्ता
तृष्णा मरणाय विज्ञेया ॥ ११ ॥

उपसर्ग अर्थात् एक रोगमें जो दूसरा रोग उत्पन्न होजाता है उसको उपद्रव कहते हैं । जैसे कि—ज्वर, मोह, क्षय, खाँसी और श्वासादि इनमें जो तृषा उत्पन्न हो तो उनमें स्वरहीनता, बेहोशी, दीनता, मुखशोष, हृदय, गले और तालुमें शोष (खुशकी) होता है यह तृषा शरीरको सुखानेवाली और कष्ट-साध्य होती है । अत्यन्त बढी हुई और रोगसे कृश हुए मनुष्योंके उत्पन्न हुई वसन्तयुक्त और घोर उपद्रवयुक्त ऐसी तृषा मरनेके ही लिये उत्पन्न होती है ॥ १० ॥

॥ ११ ॥

चिकित्सा ।

वातघ्नमन्नपानं मृदुलघुशीतश्च वात-
नृष्णायाम् । स्याज्जीवनीयसिद्धं क्षी-
रघृतं वातजे तर्षे ॥ १२ ॥

वातकी तृषामे वातनाशक अन्नपान, मृदु,
(कोमल), लघु (हलके) और शीतल पदार्थ तथा
जीवनीयगणकी औषधियोंके द्वारा सिद्ध किये हुए
दूध और घीको सेवन करे ॥ १२ ॥

तृष्णातिवृद्धाबुदरे च पूर्णे तं वामथे-
न्मागधिकोदकेन । विलोभनञ्चात्र
हितं विधेयं स्याद्दाडिमाम्रातकमातु-
लङ्गैः ॥ १३ ॥

जो तृषा अधिक बढ गई हो और जल पीते २
पेट अधिक अफरगया हो तो पीपलके काथके द्वारा
वमन करावे और अनार, अम्बाडा, एवं विजौरे
नीबूके द्वारा वायुको अनुलोमन करे ॥ १३ ॥

सुवर्णरौप्यादिभिरग्नितालोष्ठैः कृतं-
वा सिकतोत्करैर्वा । जलं सुखोष्णं
शमयेत्तु तृष्णां सशर्करं क्षौद्रयुतं
हितं वा ॥ १४ ॥

सुवर्ण, रूपा, मिट्टीका, ढेला, अथवा वालूको अग्निमे
तपाकर जलमे बुझावे, फिर सुहाता २ इस जलको
पान करे अथवा शीतल करके इस जलमे मिश्री
और गहद मिलाकर पीवे ॥ १४ ॥

वाततृषा ।

तृष्णायां प्रवनोत्थायां सगुडं दधि
शस्यते । रसाश्च बृंहणाः शीता गु-
हूच्या रस एव च ॥ १५ ॥

वातकी तृषामे गुड और दही मिलाकर सेवन
करना एवं बृंहण रस, शीतल द्रव्य और गिलोयका
रस ये सब हितकारी है ॥ १५ ॥

पञ्चाङ्गकाः पञ्चगणाय उक्तास्तेष्वम्बु
सिद्धं प्रथमे गणे वा । पिबेत्सुखोष्णं
मलुजोऽल्पशस्तु मुच्येत तृटतः पव-
नात्मकातः ॥ १६ ॥

पांच २ औषधियोंके जो पांच गण कहे हैं उनमें
से किसी एक गणको औटाकर अथवा पहले गणकी
शालिपर्णी, बडी कटेरी, पृष्ठिनपर्णी, कटेरी और गोखरु
इनका काथ बनाकर सुहाता २ पान करनेसे
वातकी तृषा शीघ्र दूर होती है ॥ १६ ॥

पित्ततृषा ।

पित्तोत्थितां पित्तहरैर्विपक्वं निहन्ति
तोयं पय एव वापि ॥ १७ ॥

पित्तकी तृषामे पित्तनाशक औषधियोंके द्वारा
सिद्ध किये हुए काथ और दूध हितकारी है ॥ १७ ॥

स्वादुतिक्तं द्रवं शीतं पित्तनृष्णाप-
हं परम् । काश्मर्यं शर्करायुक्तं चन्द-
नोशीरधान्यकम् । द्राक्षामधुकसंयुक्तं
पित्ततर्षे जलं पिबेत् ॥ १८ ॥

मधुर, कडवे, पतले और शीतल द्रव्य ये सब
पित्तकी तृषाको दूर करते हैं । कुम्भेर, चन्दन, खस,
धनियाँ, दाख और मुलैठी इनके काथमे मिश्री मिला-
कर पीनेसे पित्तकी तृषा दूर होती है ॥ १८ ॥

स्याज्जीवनीयसिद्धं क्षीरं घृतं वा पि-
त्तजे तर्षे । तद्द्रव द्राक्षाचन्दनखर्जू-
रोशीरमधुयुतं तोयम् ॥ १९ ॥

जीवनीयगणकी औषधियोंके द्वारा सिद्ध किया
हुआ दूध या घी पित्तकी तृषामे हितकारी है अथवा
दाख, चन्दन, खजूर और खस इनका काथ गहद
मिला कर सेवन करनेसे पित्तकी तृषाको दूर करता
है ॥ १९ ॥

द्राक्षाचन्दनखर्जूरी पीनं मधुयुतं ज-
लम् । तृष्णाहरं पिबेद्वापि मधुना तं-
दुलोदकम् ॥ २० ॥

दाख, चन्दन और खजूर इनका काथ बनाकर
गहद मिलाकर पीनेसे तृषा दूर होती है । अथवा
चावलोके जलको गहद मिलाकर पान करनेसे
पित्तकी तृषा दूर होती है ॥ २० ॥

कफतृषा ।

तिक्तं द्रवश्च कट्फलं कफनृष्णानिबर्ह-
णम् ॥ २१ ॥

कडव, पतले, चरपरे और खट्टे द्रव्य कफकी तृषा-
को दूर करते हैं ॥ २१ ॥

बिल्वाढकीधातकिपञ्चकोलदभेषु सि-
द्धं कफजां निहन्ति । हितं भवेच्छर्द-
नमेव चात्र तप्तेन निम्बप्रसवोदकेन २२
बेलगिरी, तुवर, धायके फूल, पीपल, पापिलामूल,
चव्य, चीता, सोंठ और डाभकी जड इनके द्वारा
सिद्ध किए हुए द्वाथको देनेसे कफकी तृषा दूर होती
है । अथवा नीमके गरमकाथके द्वारा वमन कराना
हितकारी है ॥ २२ ॥

सजीरधान्यार्द्रकशृङ्गवेरसौवर्षलान्य-
र्धजलप्लुतानि । मद्यानि हृद्यानि च
गन्धवन्ति पीतानि सद्यः शमयन्ति
तृष्णाम् ॥ २३ ॥

जीरा, धनियाँ, अदरख, सोंठ और कालानमक
इनके चूर्णको जलमें आधा भिगोकर उस जलको
सुगन्धित मदिरामें मिलाकर पीनेसे तत्काल कफकी
तृषा दूर होती है ॥ २३ ॥

लाजोदकं मधुयुतं शीतं गुडविमर्दि-
तम् । काश्मर्यशर्करायुक्तं पिबेत्तृष्णा-
दितो नरः ॥ २४ ॥

खीलोंके शीतल जलमें शहद या गुड मिलाकर
पीनेसे अथवा कुम्भेरकाँ मिश्रीके साथ जल मिलाकर
पीनेसे तृषा दूर होती है ॥ २४ ॥

शर्कराकेसरं क्षौद्रं कृष्णाजीरकदा-
डिमैः । स्नेहो वा तुडूजयी कृष्णा म-
धुक्षीरद्रुमाङ्कुरैः ॥ २५ ॥

मिश्री, नागकेशर, शहद, पीपल, जीरा और अनार
इनको घीमें मिलाकर सेवन करनेसे अथवा पीपल,
शहद और क्षीरवृक्षके अकुरोंको एकत्र मिलाकर
सेवन करनेसे तृषा दूर होती है ॥ २५ ॥

अम्लं दाडिमबीजं पीतं धात्रीफलञ्च
धान्याम्लैः । आर्द्रपटास्तरणकृतप्रा-
वृत्तगात्रस्तृषां जयति ॥ २६ ॥

खट्टे अनारके बीज और आमलोको कांजीमे पीस
कर पीनेसे अथवा गीले कपडेको शरीरपर ढकनेसे
तृषा दूर होती है ॥ २६ ॥

गोस्तनीक्षुरसक्षीरयष्टीमधुमधूत्पलैः ।
नियतं नस्यतः पीतैस्तृषां शाम्यति
दारुणा ॥ २७ ॥

दाख, ईखका रस, दूध, मुलैठी, शहद, कमल इन
को एकत्र जलमें पीसकर नाकके द्वारा पीनेसे दारुण
तृषा शांत होती है ॥ २७ ॥

कर्णशिरोमुखलेपश्चुक्रिकयाम्लदाडि-
भरसेन । तर्पयति शीघ्रमेव जलौघ-
वत्सैकतराशिम ॥ २८ ॥

चूकेको खट्टे अनारके रसमें पीसकर कान, शिर
और मुखपर लेप करनेसे शीघ्रही तृप्ति होती है जैसे
जलका समूह बालूकी राशिको तुप्त कर देता है ॥ २८ ॥

कोलदाडिमवृक्षाम्लचुक्रिकाचुक्रिका
रसः । पञ्चाम्लको मुखे लेपः
सद्यस्तृष्णां नियच्छति ॥ २९ ॥

वेर, अनार, विपांवल, चूका और चूकेका रस
इस पञ्चाम्लका मुखमें लेप करनेसे तत्काल तृषा दूर
होती है ॥ २९ ॥

क्षीरेक्षुरसमार्द्राक्षौद्रसीधुगुडोदकैः ।
वृक्षाम्लाम्लैश्च गण्डूषास्तालुशोषप्र-
णाशनाः ॥ ३० ॥

दूध, ईखका रस, दाख, शहद, सीधुनामक मदिरा,
गुडका शरवत, विपांवल और अम्लवेत इनका
गण्डूष तालुशोषको नष्ट करता है ॥ ३० ॥

तालुशोषे पिबेत्सर्पिर्घृतमण्डमथापि
वा । धान्याम्लमास्यैवैरस्यमल-
दौर्गन्ध्यनाशनम् ॥ तदेव शृतशीतं
हि मुखशोषहरं परम् ॥ ३१ ॥

तालुशापमें घृत पान करे अथवा घृत और मॉड
पीवे । काजी-मुखकी विरसता, मल और दुर्गन्धको
दूर करती है और वही पकाकर शीतल कीहुई मुख-
शोषको नष्ट करती है ॥ ३१ ॥

वैशद्यञ्जनयत्यास्ये सन्दधाति मुख-
त्रणान् । दाहतृष्णाप्रशमनं मधुग-
ण्डूषधारणम् ॥ ३२ ॥

शहदका गण्डूप—विशदताजनक, मुखके व्रणको हरनेवाला, एवं दाह और तृषाको हरनेवाला है ॥३२॥

जिह्वातालुगलक्लोमशोषे मूर्द्धनि दापयेत् । केशरं मातुलुङ्गस्य घृत-सैन्धवसंयुतम् ॥ ३३ ॥

जिह्वा, तालु, गल और क्लोम (तृषाका स्थान) इन में शोष हो तो विजारेनीचूकी केशरको घी और सैन्ध-नमकके साथ मिलाकर गिरपर मालिश कर ॥ ३३ ॥

दाडिमं बदरं लोध्रं कपित्थं बीजपूरकम् । पिष्ट्वा मूर्द्धि प्रलेपश्च पिपासा दाहनाशनः ॥ ३४ ॥

अनार, बेर, लोध्र, कैथ और विजैरानीचू इनको एकत्र पीसकर मस्तकपर प्रलेप करनेसे तृषा और दाह नष्ट होती है ॥ ३४ ॥

वारि शीतं मधुयुतमाकण्ठाद्रा पिपासितम् । पाययेद्दामयेच्चापि तेन तृष्णा प्रशाम्यति ॥ ३५ ॥

शीतल जलमें शहद मिलाकर कंठपर्यन्त खूब पी लेवे, फिर अंगुली डालकर वमन कर लेवे तो तृषा शांत होती है ॥ ३५ ॥

वटप्ररोहं मधुकुष्ठमुत्पलं सलाजचूर्णं गुटिकां प्रकल्पयेत् । सुसंहिता सा वदने विधारिता तृष्णां प्रवृद्धामपि हन्ति सत्वरम् ॥ ३६ ॥

बड़के अंकुर, शहद, कूट, कमल और खीले इनको एकत्र पीसकर गोली बना लेवे । इन गोलियोंको मुखमें धारण करनेसे अत्यन्त बढी हुई तृषा भी शांत होती है ॥ ३६ ॥

क्षयजतृषाकी चिकित्सा ।

क्षतोद्भवारुग्विनिवारणेन जयेद्रसानामसृजश्च पानैः । क्षयोत्थितां क्षीरजलं निहन्यान्मांसोदकं वा मधुकोदकं वा ॥ ३७ ॥

घावके होनेसे जो तृषा उत्पन्न होती है उसका दूर करनेके लिए घावका यत्न कर अथवा मांसका रस और रुधिरको पान करे । क्षयसे उत्पन्न हुई तृषामें

दूध और जल मिलाकर पीवे अथवा मांसरस या शहद को जलमें घोलकर पीवे ॥ ३७ ॥

आमोद्भवां विल्ववचायुतानां जयेत्कषायैरथ दीपनानाम् । उल्लेखनेर्गुर्वशनप्रजातां जयेत्क्षतोत्थां तु विना पिपासाम् ॥ ३८ ॥

आमसे उत्पन्न हुई तृषाको वेलगिरी और वच डाल कर दीपन काथोसे जीते । भारी अन्नादिकके सेवनसे जो तृषा उत्पन्न हो तो वमनादि लेखन उपायोसे जीते किन्तु वह क्षतज नहीं हो ॥ ३८ ॥

स्निग्धेऽत्रे भुक्ते या तृष्णा स्यात्तां गुडाम्बुना शमयेत् । अतिरूक्षदुर्बलानां तृष्णां शमयेन्नृणामिहाशु पयः ॥३९॥ छागो वा घृतभृष्टः शीतो मधुरो रसो हृद्यः ॥ ४० ॥

स्निग्ध अन्नके सेवन करनेसे जो तृषा उत्पन्न होती है उसको गुडके शरवतसे शांत करे, अत्यन्त रूखे और दुर्बल मनुष्योंके जो तृषा उत्पन्न हो तो दूध पिलाकर शमन करे अथवा वकरके मांसको घीमें भूत कर खाय या अन्यान्य मधुरादि रस मित्रा हृदयको जो हितकारी हो ऐसे पदार्थोंको सेवन करे ॥ ३९ ॥ ॥ ४० ॥

मूर्च्छाच्छर्दितृषादाहस्त्रीमद्यभृशकार्षितः । पिबेयुः शीतलं तोयं रक्तपित्तमदात्यये ॥ ४१ ॥

मूर्च्छा, वमन, तृषा, दाह, स्त्रीप्रसंग और मद्यपान करनेसे अत्यन्त क्षीण हुआ मनुष्य रक्तपित्त और मदात्यय रोगमें शीतल जल पीवे ॥ ४१ ॥

तृष्यन्नुर्ध्वामयी क्षीणो न लभेत जलं यदि । मरणं दीर्घरोगश्च प्राप्नुयात्त्वरितं नरः ॥ ४२ ॥

ऊर्ध्वगत रोगोंके मनुष्य और क्षीण मनुष्योंके जो तृषा उत्पन्न होती है उस तृषामें यदि वह जल नहीं पीवे तो तत्काल ही मृत्यु अथवा महारोग उत्पन्न होता है ॥ ४२ ॥

सात्म्यान्नपानभेषज्यैस्तृषार्त्तस्य जये-
त्तृषामातस्याञ्जितायामन्योऽपि व्या-
धिः शक्यश्चिकित्सितुम् ॥ ४३ ॥

सात्म्य (जो अपनी प्रकृतिके अनुकूल हो) अन्न
पान और औषधि यह तृषारोगीको शांत करनेके लिये
पिलावे । इसप्रकार तृषाको जीतनेसे अन्यव्याधि भां
जीत सकता है ॥ ४३ ॥

तृषितो मोहमायाति मोहात्प्राणा-
न्विमुञ्चति । तस्मात्सर्वास्ववस्थासु
न कश्चिद्धारि वर्जयेत् ॥ ४४ ॥

तृषातुर मनुष्यके मोह उत्पन्न होता है और मोहसे
प्राण नष्ट होने है इसकारण किसी अवस्थामे भी
जलका देना बंद न करे ॥ ४४ ॥

अत्रेनापि विना जन्तुः प्राणान्धारय-
ते चिरम् । तोयाभावे पिपासार्त्तः क्ष-
णात्प्राणैर्विमुच्यते ॥ ४५ ॥

अन्नके विना प्राणी बहुत कालतक जीते रहते हैं
परन्तु जलके विना तो तृषित मनुष्य क्षणभरमे प्राणों
को छोड़ देता है ॥ ४५ ॥

इति श्रीवंगसेने भापाटीकायां
तृषाधिकार संपूर्ण ।

अथ मूर्च्छाधिकारः ।

— ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ —

क्षणस्य बहुदोषस्य विरुद्धाहारसे-
विनः । वेगाघातादभीघाताद्धीनस-
त्त्वस्य वा पुनः ॥ १ ॥ कारणायतने-
पृथां बाह्येष्वाम्यन्तरेषु च । निवस-
न्ति यदा दोषास्तदा मूर्च्छन्ति मा-
नवाः ॥ २ ॥ संजावहासु नाडीषु
पिहिताप्वनिलादिभिः । तमोऽभ्यु-
पैति सहसा सुखदुःखव्यपोहकृत् ॥ ३ ॥

सुखदुःखव्यपोहाच्च नरः पतति का-
ष्ठवत् । मोहो मूर्च्छेति तामाहुः ष-
ड्विधा सा प्रकीर्त्तिता ॥ ४ ॥ वाता-
दिभिः शोणितेन मद्येन च विषेण
च । षट्स्वप्येतासु पित्तं तु प्रभुत्वे-
नावतिष्ठति ॥ ५ ॥

क्षीण मनुष्योके, बहुत दोषोके संचित होनेसे, विरुद्ध
आहारके करनेसे, मलमूत्रादिकके वेगोको रोकनेसे,
लकड़ी आदि चोटके लगनेसे और सत्त्वगुणके नष्ट
होनेसे, मनके वहनेवाले बाहरकी कामेन्द्रियें और
भीतरकी ज्ञानेन्द्रियामे जब बढेहुए वातादि दोष स्थित
होते है तब प्राणी मूर्च्छित होते हैं। संज्ञा अर्थात् चेत-
नाकी वहनेवाली नाडियोमे जब वातादिदोष आच्छा-
दित होजाते है तब एकाएकी सुख दुःखको नष्ट करने-
वाला तमोगुण उत्पन्न होता है, सुखदुःखके नष्ट हो-
नेसे मनुष्य काष्ठके समान गिरपडता है, तब उसको
मूर्च्छा अथवा मोह कहते है यह मूर्च्छारोग वात, पित्त,
कफ, रक्त, मद्य और विष इन भेदोसे छ. प्रकारका है।
परन्तु इन छ.ओमें पित्त प्रधानतासे रहता है ॥ १-५ ॥

पूर्वरूप ।

हृत्पीडाजृम्भणं ग्लानिः संज्ञादौर्बल्य-
मेव च । सर्वासां पूर्वरूपाणि यथा-
स्वन्तं विभावयेत् ॥ ६ ॥

हृदयमे पीडा, जम्भार्इयोका आना, ग्लानि और
ज्ञानका नष्ट होना ये सब मूर्च्छाओके यथादोषानुसार
पूर्वरूप जानने ॥ ६ ॥

वातजमूर्च्छाके लक्षण ।

नीलं वा यदि वा कृष्णमाकाशम-
थवारुणम् । पश्यन्तमः प्रविशति
शीघ्रश्च प्रतिबुध्यते ॥ ७ ॥ वेपथुश्चां-
गमर्दश्च प्रपीडा हृदयस्य च । का-
श्यं स्यावारुणा छाया मूर्च्छायै वा-
तसम्भवे ॥ ८ ॥

जो मनुष्य नीले या काले, अथवा लाल आका-
शको देखकर अंधकारमे घुसता हुआ मूर्च्छित होजाता

है तथा कंप, शरीरका द्रटना, हृदयमें पीडा, कृशता और शरीरका रंग धूसर वर्ण हो जाता है और इसमें शीघ्र ही रोगी चैतन्य होजाता है उसको वातकी मुर्च्छा कहते है ॥ ७ ॥ ८ ॥

पित्तजमूर्च्छाके लक्षण ।

रक्तं हरितवर्णञ्च वियत्पीतमथापि वा । पश्यंस्तमः प्रविशति सस्वेदश्च प्रबुध्यते ॥९॥ सपिपासः ससन्तापो रक्तपीताकुलेक्षणः । संभिन्नवर्चाः पीताभो मूर्च्छायि पित्तसम्भवे ॥१०॥

पित्तकी मूर्च्छामें मूर्च्छाके आनेके समय रोगी लाल, हरे अथवा पीले आकाशको देखकर अंधकारमें घुसता है। जब मूर्च्छा दूर होती है अर्थात् होश होता है तब पसीना आता है, तृषा, सन्ताप, नेत्र लाल और पीले तथा व्याकुलता, मल पतला और शरीरका रंग पीला होता है ॥ ९ ॥ १० ॥

कफजमूर्च्छाके लक्षण ।

भेद्यसंकाशमाकाशमावृतं वा तमो-
घनैः । पश्यंस्तमः प्रविशति चिरा-
च्च प्रतिबुध्यते ॥ ११ ॥ गुरुभिः
प्रावृत्तैरङ्गैर्यथैवाद्ग्रेण चर्मणा । स-
प्रसेकः सहलासो मूर्च्छायि कफस-
म्भवे ॥ १२ ॥

कफकी मूर्च्छामें भेद्यसे आच्छादित आकाश अथवा घोर अंधकारसे आकाशको आच्छादित देखकर मूर्च्छित होता है और बहुतकालमें चैतन्य होता है, भारी बोझ अथवा गोला चमडासा शरीरपर ढका हुआ मालूम होता है, मुखसे पानी गिरता है और उबकाई आती है ॥ ११ ॥ १२ ॥

सन्निपातिकमूर्च्छाके लक्षण ।

सर्वाकृतिः सन्निपातादपस्मार इवा-
गतः । सजन्तुं पातयत्याशु विना
वीभत्सचेष्टितैः ॥ १३ ॥

सन्निपातकी मूर्च्छामें तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं और उसमें प्राणी अचानक ही वीभत्स कारणोंके विना अपस्माररोगीके समान गिर जाता है ॥ १३ ॥

रक्तजमूर्च्छाके लक्षण ।

पृथिव्यापस्तमोरूपं रक्तगन्धश्च त-
न्मयः । तस्माद्रक्तस्य गन्धेन भुवि
मूर्च्छन्ति मानवाः ॥ १४ ॥ द्रव्यस्व-
भाव इत्येके दृष्ट्वा यदपि मुह्यति ॥१५॥
पृथ्वी और जल तमोगुण विशिष्ट हैं और रुधिरकी गन्धभी तमोगुणयुक्त है इस कारण तामसी मनुष्य रुधिरकी गंधसे मूर्च्छित होजाते हैं और अन्य आचार्य्यकहते हैं कि, द्रव्यका स्वभावही ऐसा है कि, जिसको देखनेसे मूर्च्छा होती है ॥ १४ ॥ १५ ॥

मद्य और विषकी मूर्च्छाके लक्षण ।

गुणास्तीव्रतरत्वेन स्थितास्तु विष-
मद्ययोः । त एव तस्मात्ताभ्यान्तु
मोहौ स्यातां यथेरितौ ॥ १६ ॥

तेलादिक पदार्थोंमें जो तीव्र गुण रहते हैं वेही गुण अत्यन्त तीव्रतासे विष और मद्यमें रहते हैं इसकारण मद्य और विषसे तीव्र मूर्च्छा होती है तथा मद्यकी अपेक्षा विषसे अत्यन्त तीव्र जाननी ॥ १६ ॥

स्तब्धाङ्गदृष्टिस्त्वसृजा गूढोर्च्छासश्च
मूर्च्छितः ॥ १७ ॥ मद्येन विलप-
ञ्छेते नष्टविभ्रान्तमानसः । गात्राणि
विक्षिपन् भ्रमौ जरां यावन्न याति
तत् ॥ १८ ॥ वेपथुस्वप्नतृष्णाः स्युस्त-
मश्च विषमूर्च्छिते । वेदितव्यं तीव्र-
तरैर्यथास्वं विषलक्षणैः ॥ १९ ॥

रुधिरकी मूर्च्छामें सम्पूर्ण अंग और दृष्टि जड हो जाती है और अच्छे प्रकारसे श्वास नहीं आता है । अत्यन्त मदिराके पीनेसे जो मूर्च्छा होती है उसमें रोगी बहुत बकवाद करे, सो जावे, बेहोश हो जावे, मनमें भ्रम हो और जबतक मद्य जीर्ण नहीं हो तबतक हाथ पाँवको इधर उधर भूमिमें पटकता रहता है । विषकी मूर्च्छावाले मनुष्यके कम्प, निद्रा, तृषा और अंधकारदर्शन ये सब लक्षण होते हैं । इसमें जैसा २ तीव्र या मृदु विष भक्षण कियाजाय उसी उसी प्रकारके अनुसार लक्षण जानने ॥ १७—१९ ॥

मूर्च्छा पित्ततमःप्राया रजःपित्ता-
निलाद्रमः । तमोवातकफात्तन्द्रा
निद्रा श्लेष्मतमोभवा ॥ २० ॥

पित्त और तमोगुणसे मूर्च्छा होती है । रजोगुण
पित्त और वायुसे भ्रम होता है । तमोगुण वात
और कफसे तन्द्रा होती है, कफ और तमोगुणसे निद्रा
होती है ॥ २० ॥

क्लमके लक्षण ।

अनायासश्रमो देहे प्रवृद्धः श्वासव-
र्जितः । क्लमः स इति विज्ञेय इन्द्रि-
यार्थप्रबाधकः ॥ २१ ॥

विना परिश्रमके शरीर अत्यन्त थकासा मालूम
हो और उससे श्वास भी नहीं आवे और इन्द्रियें
भी अपने २ कार्यको नहीं कर सकें उसको क्लम
कहते हैं ॥ २१ ॥

तन्द्राके लक्षण ।

इन्द्रियार्थेष्वसंवित्तिर्गौरवं जृम्भणं
क्लमः । निद्रार्त्तस्येव यस्यैतत्तस्य
तन्द्रां विनिर्दिशेत् ॥ २२ ॥

जिसमें इन्द्रियें अपने २ विषयको नहीं ग्रहण कर
सके तथा निद्राके समान गुरुता (भारीपन) जं-
भाई और क्लम ये लक्षण हो उसको तन्द्रा कहते
हैं ॥ २२ ॥

इन्द्रियाणान्तु मनसो मोहो निद्रा
निगद्यते । विमोहस्त्विन्द्रियाणान्तु
स तु तन्द्रा विरच्यते ॥ २३ ॥

जिसमें इन्द्रियोंमें और मनमें मोह होता है उसको
निद्रा कहते हैं और जिसमें इन्द्रियें और मनमें मोह
नहीं होता उसको तन्द्रा कहते हैं ॥ २३ ॥

दोषेषु मदमूर्च्छाया गतवेगेषु देहि-
नाम् । स्वयमेवोपशाभ्यन्ति संन्या-
सो नौषधैर्विना ॥ २४ ॥

दोषोंके वंग नष्ट होनेसे मद मूर्च्छादिक अपने
आप ही शांत होजाते हैं और संन्यास विना औषधि
के शांत नहीं होता है ॥ २४ ॥

संन्यासके लक्षण ।

वाग्देहमनसां चेष्टामाक्षिप्यातिव-
ला मलाः । संन्यस्यान्त्यबलं जन्तुं
प्राणायतनमाश्रिताः ॥ २५ ॥ स ना
संन्याससंन्यस्तः काष्ठीभूतो मृतो-
पमः । प्राणैर्विमुच्यते शीघ्रं मुक्ता स-
द्यःफलां क्रियाम् ॥ २६ ॥

जब हृदयमें रहनेवाले अत्यन्त बलवान् कुपित
दोष प्राणोंके स्थानरूप हृदयमें-वाणीकी, देहकी
और मनकी चेष्टाको नष्ट करके दुर्बल मनुष्यको
बेहोश करदेते हैं तब वह संन्यास रोगी पृथ्वीमें
काठके समान मराहुआ सा गिर जाता है, उसकी
तत्काल सिद्धिदायक चिकित्सा (सुई चुभोना, दाग
देना आदि) न फी जावे तो वह शीघ्र ही प्राणोंको
छोड़ देता है ॥ २५ ॥ २६ ॥

चिकित्सा ।

सेकावगाहा मणयः सहाराः शीताः
प्रदेहा व्यजनानिलाश्च । शीतानि
पानानि च गन्धवन्ति सर्वासु नूर्च्छा-
सु निवाकाणि ॥ २७ ॥

मूर्च्छारोगमें रोगिके शरीरपर जलका छिड़कना
जलमें घुसकर स्नान करना, मणि मोती आदिके
हारोंको धारण करना, चन्दनादि सुगन्धित और
शीतल पदार्थोंका प्रलेप करना, शीतल पंखेकी
पवन और गुलाब, केवडा आदि शीतल और सुग-
न्धित अर्कोंका पीना, ये कर्म सब प्रकारकी मूर्च्छाको
दूर करते हैं ॥ २७ ॥

सिद्धानि वर्गे मधुरे पयांसि सदाडि-
मा जाङ्गलजा रसाश्च । तथा यवा
लोहितशालयश्च मूर्च्छासु पथ्याश्च
सतीनमुद्राः ॥ २८ ॥

मधुर द्रव्योंके साथ सिद्ध किया हुआ दूध, अना-
रके रसके साथ जांगल जीवोंका मांसरस तथा जौ,
लाल चावल, मटर और मूँग ये सब पदार्थ मूर्च्छा-
रोगमें हितकारी हैं ॥ २८ ॥

मूर्च्छां प्रशस्तांबुशिरोविरेकैर्जयेदभी-
क्षणं वमनैश्च तीक्ष्णैः ॥ २९ ॥

शिराविरिचन (अत्यन्त तीक्ष्ण नस्य) अथवा तीक्ष्ण वमन करानेसे मूर्च्छा दूर होती है ॥ २९ ॥

कोलमज्जीषणोशीरं केशरं शीतवारिणा । पतिं मूर्च्छां जयेल्लीढ्वा कृष्णां वा मधुसंयुताम् ॥ ३० ॥

वेरकी मींग, काली मिरच, खस और नागकेजर इनको एकत्र शीतल जलमे पीसकर पीनेसे अथवा पीपलको शहदमे मिलाकर सेवन करनेसे मूर्च्छा दूर होती है ॥ ३० ॥

भ्रमः पित्तस्य संवृद्धौ जायते पवनस्य च । अतस्तयोः प्रशमनीं क्रियामत्रावचारयेत् ॥ ३१ ॥

वात और पित्तके अधिक बढ़नेसे भ्रम उत्पन्न होता है इस कारण भ्रमको दूर करनेके लिये मूर्च्छामे वातपित्तशामक चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ३१ ॥

महौषधामृता क्षौद्रं पुष्करं ग्रन्थिकोद्भवम् । पिबेत्कणायुतं काथं मूर्च्छायाश्च मदेषु च ॥ ३२ ॥

सोठ, गिलोय, शहद, पोहकरमूल और पीपलामूल इनका काय बनाकर पीपलका चूर्ण डालकर पान करनेसे मूर्च्छा और मद दूर होता है ॥ ३२ ॥

पिबेद्दुरालभाकाथं सवृतं भ्रमशान्तये । त्रिफलायाः प्रयोगो वा प्रयोगः पयसोऽपि वा ॥ ३३ ॥

धमासेके काथमे घी डालकर भ्रमको शांत करने के लिये पान करे । त्रिफलेको सेवन करनेसे अथवा दूधको सेवन करनेसे भ्रम शांत होता है ॥ ३३ ॥

कार्पासबीजपाण्डुरतण्डुलतक्रैः प्रकल्पिता पेया । धान्यकहिंशुनागरजीरकलवणैर्विनाशयेद्भ्रमणम् ॥ ३४ ॥

कपासके बीज, धवकी छाल, चावल, तक्र, धनियाँ, हींग, सोठ, जीरा और सैंधानमक इनकी बनाई हुई पेया भ्रमको दूर करती है ॥ ३४ ॥

स्विन्नमामलकं पिष्ट्वा द्राक्षया सह संसृजेत् । विश्वभेषजसंयुक्तं मधुना सह

लेहयेत् । तेनास्य शाम्यते मूर्च्छाश्वासः कासस्तथैव च ॥ ३५ ॥

उसीजे हुए आमले, दाख और सोठ इनको एकत्र पीसकर शहद मिलाकर चाटनेसे मूर्च्छा, श्वास और खोंसी दूर होती है ॥ ३५ ॥

पञ्चमूलकषायश्च मधुना सितया पिबेत् । यथास्वश्च ज्वरघ्नानि कषायाणि प्रयोजयेत् ॥ ३६ ॥

पंचमूलके काथको शहद और मिश्रिके साथ पान करे और ज्वरनाशक काथको भी यथाव्योपानुसार पान करे ॥ ३६ ॥

रक्तजायान्तु मूर्च्छायां हितः शीतक्रियाविधिः । मद्यजायां पिबेन्मद्यं निद्रां सेवत वा सुखम् ॥ ३७ ॥

रुधिरकी मूर्च्छामे शीतल उपाय करना चाहिए । मद्यकी मूर्च्छामे मदिरा पीवे और सुखपूर्वक निद्रासेवन करे ॥ ३७ ॥

विषजायां विषघ्नानि भेषजानि प्रयोजयेत् ॥ ३८ ॥

विषकी मूर्च्छामे विषनाशक औषधि प्रयोग करे ॥ ३८ ॥

भ्रमनाशिनीगुटी ।

कृष्णाशताह्वाशुण्ठीनां साभयानां पलं पलम् । गुडस्य षट्पलान्येषा गुटिका भ्रमनाशिनी ॥ ३९ ॥

पीपल, शतावर, सोठ और हरड ये प्रत्येक औषधि चार चार तोले और गुड २४ तोले लेवे, सबको एकत्र कूट पीसकर गोली बना लेवे । यह गोली-भ्रमको दूर करती है ॥ ३९ ॥

अञ्जनान्यवपीडाश्च धूमाः प्रधमनानि च । सूचीभिस्तोदनं शस्तं दाहपीडानखान्तरे ॥ ४० ॥ लुञ्चनं केशलोम्नाश्च दन्तैर्दशनमेव च । आत्मशुक्तावघर्षश्च हितस्तस्यावबोधने ॥ ४१ ॥

अजन, अवपीडन, नस्य, धूम्रपान, प्रधमन, सुई चुभोना, दाग देना, पीडना, नोचना, बाल और रुओको उखाडना, दातोसे काटना और कैचकी

की फलीको घिसकर लगाना सबको मूर्च्छाके दूर करनेके लिये उपचार करें ॥ ४० ॥ ४१ ॥

उत्थितो लब्धसंज्ञश्च लशुनस्य रसं पिबेत् । खादेत्सव्योषलवणबीजपूरककेशरम् ॥ ४२ ॥


जब संज्ञा आजाय अर्थात् चैतन्य होजाय तब लशुनका रस पीवे अथवा त्रिकुटा, सैधानमक और विजारेकी केशरको एकत्र करके सेवन करे ॥ ४२ ॥

पथ्याक्वाथेन संसिद्धं वृतं धात्रीरसेन च । सर्पिः कल्याणकं वापि मदमूर्च्छापहं पिबेत् ॥ ४३ ॥

हरदके काथके द्वारा और आमलोंके रसके द्वारा सिद्ध किया हुआ घी अथवा कल्याणवृत मद और मूर्च्छाको दूर करनेके लिये पान करे ॥ ४३ ॥

इति श्रीवज्रसेने भाषाटीकायां
मूर्च्छाधिकार संपूर्ण ।

मदात्ययाधिकार ।



तहां प्रथम मदात्ययरोगका निदान कहते हैं—
ये विषस्य गुणाः प्रोक्तास्ते मद्येऽपि प्रकीर्त्तिताः । तेन मिथ्योपयुक्तेन भवत्युग्रो मदात्ययः ॥ १ ॥

जो विषके गुण कहे हैं वेही गुण मद्यमें भी जानने। मद्यको कुविधिसे सेवन करनेसे अत्यन्त भयंकर मदात्यय रोग उत्पन्न होता है ॥ १ ॥

किन्तु मद्यं स्वभावेन यथैवान्नं तथा स्मृतम् । अयुक्तियुक्तं रोगाय युक्तियुक्तं तथा मृतम् ॥ २ ॥

किंतु मद्य स्वभावसे ही ऐसी है जैसे कि अन्न स्वभावमें ही प्राणरक्षक है । इसको कुविधिसे पीनेसे अनेक रोगोंको उत्पन्न करती है और युक्तिपूर्वक पीनेसे अमृतकी समान गुणोंको करती है ॥ २ ॥

प्राणाः प्राणभृतान्नं तदयुक्तान्तु हन्त्यसून् । विषं प्राणहरं तच्च युक्तियुक्तं रसायनम् ॥ ३ ॥

यद्यपि अन्न प्राणियोंके प्राणोंकी रक्षा करनेवाला है तथापि इसको अयुक्तिसे सेवन कियाजाय तो यही

प्राणोंका नाश करदेता है। इसी प्रकार विष प्राणोंका नाश करनेवाला होने पर भी युक्तिपूर्वक सेवन किया जाय तो रसायनके गुणोंको करता है ॥ ३ ॥

विधिना मात्रया काले हितैरत्रैर्यथाबलम् । प्रहृष्टो यः पिबेन्मद्यं तस्य स्यादमृतोपमम् ॥ ४ ॥

विधिपूर्वक यथामात्रानुसार उचित समय हितकारक अन्नोंके साथ बलानुसार अत्यन्त हर्षित होकर जो मद्यपान करता है उसके वह पीहुई मद्य अमृतकी समान गुण करती है ॥ ४ ॥

स्निग्धैस्तदन्नैर्मांसैश्च भक्ष्यैश्च सह सेवितम् । भवेदायुःप्रकर्षाय बलायोपचयाय च ॥ ५ ॥

स्निग्ध अन्न, मांस और अनेक प्रकारके भक्ष्योंके साथ सेवन कीहुई मदिरा-आयु और बलको बढ़ाती है और शरीरको पुष्ट करती है तथा अत्यन्त आनन्द उत्पन्न करती है ॥ ५ ॥

काम्यता मनसस्तुष्टिस्तेजो विक्रम एव च ॥ विधिना सेव्यमाने तु मद्ये सन्निहिता गुणाः ॥ ६ ॥

विधिपूर्वक सेवन कीहुई मदिरा सुन्दर स्वरूप और कामनाको करती है । मनमें सन्तोष, तेज और पराक्रमको उत्पन्न करती है इसके सिवाय और भी अन्यान्य गुणोंको उत्पन्न करे है ॥ ६ ॥

तथैवान्नमनज्ञेन सेव्यमानममात्रया । कायाग्निना ह्यग्निसमं समेत्य कुरुते गदान् ॥ ७ ॥

और जो वही मद्य विना अन्नके कुविधिसे सेवन की जाय तो अग्निके समान शरीरकी अग्निके साथ मिलकर भयंकर मदात्यय आदि रोगोंको उत्पन्न करती है ॥ ७ ॥

मदेन करणानान्तु भावान्यत्वे कृते सति । निगूढमपि भावंस्वं प्रकाशं कुरुतेऽवशः ॥ ८ ॥

मद्यसे विवश हुआ पुरुष अन्यान्य भावोंको प्राप्त होकर अपने गुह्यभावोंको भी प्रकाशित कर देता है ॥ ८ ॥

श्लेष्मिकांश्चाल्पपित्तांश्च स्निग्धान्मांसोपसेविनः । पानं न बाधतेऽत्यर्थं विपरीतांश्च बाधते ॥ ९ ॥

कफप्रकृतिवाले, अल्पपित्तवाले, स्निग्ध और मांसको सेवन करनेवाले मनुष्योंको मदिरा बाधा नहीं करती और इनसे विपरीतको बाधा करती है ॥ ९ ॥

त्रिगुणमदके लक्षण ।

बुद्धिस्मृतिप्रीतिकरः सुखश्च पानान्ननिद्रारतिवर्द्धनश्च । संपाठगीतस्वरवर्धनश्च प्रोक्तोऽतिरम्यः प्रथमो मदो हि ॥ १० ॥

प्रथममद—बुद्धि, स्मरणशक्ति, प्रीति, सुख, पान, क्षुधा, निद्रा और कामदेवको बढ़ाता है, तथा पढ़ने और गानेमें उत्तम स्वरको उत्पन्न करता है और यह प्रथम मद अति रम्य है ॥ १० ॥

अव्यक्तबुद्धिस्मृतिवाग्विचेष्टः सोन्मत्तलीलाकृतिरप्रशान्तः । आलस्यनिद्राभिहतो मुहुश्च मध्येन मत्तः पुरुषो मदेन ॥ ११ ॥

द्वितीयमदसे—बुद्धि, स्मरणशक्ति और वाक्शक्ति मन्द होती है तथा उससे मत्त पुरुष विरुद्ध चेष्टा, अत्यन्त प्रचण्ड होकर उन्मत्तकी समान लीला करता, तथा वारंवार आलस्य और निद्रासे पीडित होजाता है ॥ ११ ॥

गच्छेद्गम्या न गुरुंश्च मन्थेत् खादेद्भक्ष्याणि च नष्टसंज्ञः । ब्रूयाच्च गुह्यानि हृदि स्थितानि मदे तृतीये पुरुषस्त्वतन्त्रः ॥ १२ ॥

मदकी तृतीय अवस्थामें पुरुष स्वतंत्र होकर अगम्य स्त्रियोंमें गमन करता है । गुरुजनोंका अनादर, अभक्ष्य भक्षण करता है, संज्ञाका नष्ट होना और हृदयमें स्थित गुप्त बातोंको कहने लगता है ॥ १२ ॥

चतुर्थे तु मदे मूढो भग्नदाविंश निष्क्रियः । कार्यकार्यविभागाज्ञो मृतादथ परो मृतः ॥ १३ ॥

चतुर्थमदसे पीडित मनुष्य— फटी हुई लकड़ीके समान, क्रिया रहित होकर पृथ्वीमें गिरता

१ मृतादव्यपरो मृत इत्यपि पाठः ।

है, तथा कार्य और अकार्यको नहीं समझता और मरेसे भी अधिक मरेकी समान होजाता है ॥ १३ ॥

को मदं तादृशं गच्छेदुन्माद इव चापरः । बहुदोषमिवारूढः कान्तारं स्ववशः कृती ॥ १४ ॥

अतएव इस महानिद्रा उन्मादके समान बहुत दोषयुक्त मदका कौन सेवन करे अर्थात् हिंस्रजीवों युक्त वनके समान ऐसी हानिकारक मदिरा किसीको भी सेवन नहीं करनी चाहिए ॥ १४ ॥

निर्धुक्तमेकान्तत एव मद्यं निषेव्यमाणं पुरुषेण नित्यम् । आपादयेत्कष्टतमाविकारानापादयेच्चापि शरीरभेदम् ॥ १५ ॥

बिना स्निग्धादि भोजनके निरन्तर नित्यपी हुई मदिरा अनेक दुःखदायक विकारोंको उत्पन्न करती है और शरीरको भी नष्ट करती है ॥ १५ ॥

क्रुद्धेन भीतेन पिपासितेन शोकाभिततेन बुभुक्षितेन । व्यायामभाराध्वपरिक्षतेन वेगावरोधाभिहतेन चापि ॥ १६ ॥ अत्यम्लभक्ष्यावततोदरेण सजीर्णभक्तेन तथा बलेन । उष्णाभिततेन च सेव्यमानं करोति मद्यं विविधान्विकारान् ॥ १७ ॥

क्रोधित, भयभीत, तृपातुर, शोकयुक्त, क्षुधासे पीडित, अत्यन्त कसरत, परिश्रम और बोझ ढोने या मार्ग चलनेसे जो थकगये है, मलमूत्रके वेगोंको रोकनेसे अथवा लाठी आदिकी चोट लगनेसे, अधिकतर खटाई खानेसे, भरे पेट पर खानेसे, अजीर्णमें भोजन करनेवाले, निर्बल और गर्मीसे संतापित ऐसे पुरुषोंके पीहुई मदिरा अनेक प्रकारके विकारोंको उत्पन्न करती है ॥ १६ ॥ ॥ १७ ॥

पानात्ययं परमदं पानाजीर्णमथापि वा । पानविभ्रमसंज्ञश्च तेषां वक्ष्यामि लक्षणम् ॥ १८ ॥

अब उन विकारोंको कहते हैं । पानात्यय, परमद, पानाजीर्ण और पानविभ्रम इत्यादि भयंकर विकार

उत्पन्न होते हैं । अब उनके लक्षणोंको कहते हैं ॥ १८ ॥

वातज मदात्ययके लक्षण ।

हिकाशवासशिरःकम्पपार्श्वशूलप्रजा-
गरेः । विद्याद्बहुप्रलापस्य वातप्रायं
मदात्ययम् ॥ १९ ॥

वातके मदात्ययमे हिचकी,श्वास,शिरका कॉपना,
पसलियोंमें पीडाका होना, निद्राका नहीं आना और
बहुत वकवादका होना ये सब लक्षण होते हैं ॥१९॥

पित्तज मदात्ययके लक्षण ।

तृष्णादाहज्वरस्वेदमौहातीसारवि-
भ्रमैः । विद्याद्भ्रितवर्णस्य पित्तप्रायं
मदात्ययम् ॥ २० ॥

पित्तके मदात्ययमे तृषा, दाह, ज्वर, पसीनेका
आना, मोह, अतीसार, भ्रम और शरीरका रंग हरा
हो जाता है ॥ २० ॥

कफज मदात्ययके लक्षण ।

छर्द्यरोचकहृत्तासतन्द्रास्तैमित्यगौ-
रवैः । विद्याच्छीतपरीतस्य कफप्रायं
मदात्ययम् ॥ २१ ॥

वमन, अरुचि, उबकाई, तन्द्रा,शरीरमे गीलापन
और भारीपन तथा शरदीका लगना ये सब लक्षण
कफज मदात्ययमे होते हैं ॥ २१ ॥

त्रिदोषजनित मदात्ययके लक्षण ।

ज्ञेयद्विदोषजश्चापि सर्वलिङ्गैर्मदा-
त्ययः ॥ २२ ॥

त्रिदोषजनित मदात्ययमे तीनों दोषोंके सम्पूर्ण
लक्षण होते हैं ॥ २२ ॥

परमदके लक्षण ।

श्लेष्मोच्छ्रयोऽङ्गुहता विरसास्यता
च विण्मूत्रसक्तिरथ तन्द्रिररोचकश्च ।
लिङ्गं परस्य तु मदस्य वदन्ति त-
ज्ज्ञास्तृष्णा रुजा शिरसि सन्धिषु
चापि भेदः ॥ २३ ॥

परमदरोगमें रोगीकी नाकसे कफका गिरना,
शरीरमे भारीपन, मुखमें विरसता और मल मूत्रका
अवरोध, तन्द्रा,अरुचि, तृषा, शिरमें पीडा और सब
सन्धियोंमें भेदन सरीखी पीडा होती है ॥ २३ ॥

पानाजीर्णके लक्षण ।

आध्मानमुग्रमथवोद्गिरणं विदाहः
पाने त्वजीर्णमुपगच्छति लक्षणानि ।
ज्ञेयानि तत्र भिषजा सुविनिश्चिता-
नि पित्तातिकोपजनितानि च कार-
णानि ॥ २४ ॥

पानाजीर्णमें अत्यन्त पेटका फूलना, डकारका
आना और दाहका होना अथवा अजीर्ण, वमनका
होना ये सब लक्षण होते हैं तथा और भी पित्तप्रको-
पजनित अनेक कारण होते हैं ॥ २४ ॥

पानविभ्रमके लक्षण ।

हृद्गात्रतोदकफसंलवकण्ठधूममूर्च्छा-
वमिज्वरशिरोरुजनप्रदेहाः । द्वेषः
सुरान्नविकृतेषु च तेषु तेषु तं पानवि-
भ्रममुशन्त्यखिलेन धीराः ॥ २५ ॥

हृदय और गात्रमें तोडने या सुई चुभोने सरीखी
पीडा होती है, नाक और मुखसे कफका निकलना,
कंठमे घुआंसा उठना,वमन,मूर्च्छा, ज्वर,शिरमे पीडा
होना,मुखमे कफ ह्रीसा रहे तथा सर्व प्रकारकी मदिरा
पर और सर्व प्रकारके अन्नोके ऊपर अरुचि हो तो
मद्यके विकारोंमे पानविभ्रमरोग उत्पन्न हुआ जानना
चाहिए ऐसा प्राचीनाचार्योंने कहा है ॥ २५ ॥

असाध्यलक्षण ।

हीनोत्तरौष्ठमतिशीतममन्ददाहं तै-
लप्रभास्यमतिपानहतं त्यजेत्तु । जि-
ह्वौष्ठतालुमसितं त्वथवापि नीलं पित्तं
च यस्य नयने रुधिरप्रभे वा ॥ २६ ॥

पानात्यय और पानविभ्रम आदि रोगोंमे जो रोगी-
का नाथिका होठ लटक जाय, बाहरसे अत्यन्त ग्रीत
लगे, भीतर दाह हो, मुख तेलके समान चिपकासा
रहे, जिह्वा, तालु और होठ काले अथवा नीले
पडजाय, नेत्र पीले या रुधिरके समान लाल होजाय
तो उसको असाध्य समझ कर त्याग देवे ॥ २६ ॥

उपद्रव ।

हिकाज्वरौ वमथुवेपथुपार्श्वशूलाः
कासभ्रमावपि च पानहतं त्यजे-
त् ॥ २७ ॥

हिचकी, ज्वर, वमन, कंप, पार्श्वशूल, खांसी और
भ्रम ये लक्षण हो तो वैद्य उस मदात्ययरोगवाले
रोगिको त्याग देवे ॥ २७ ॥

ध्वंसक और विक्षेपके लक्षण ।

विच्छिन्नमद्यः सहसा योऽतिमद्यं निषे-
वते । ध्वंसको विक्षेपकश्च रोगश्चा-
स्योपजायते ॥ २८ ॥

जो मनुष्य कदापि मद्य नहीं पीता हो वह मनुष्य
यदि एकसाथ निरन्तर कुविधेसे अधिकतर मद्यपान
करे तो उसके ध्वंसक और विक्षेपक यह रोग उत्पन्न
होते है ॥ २८ ॥

श्लेष्मप्रसेकहृत्कण्ठास्यशोषश्च सहि-
ष्णुता । तन्द्रानिद्रातियोगश्च ज्ञेयं
ध्वंसकलक्षणम् ॥ २९ ॥

ध्वंसक रोगमे कफका गिरना, हृदय, कंठ और
मुखमे शोष, असहनशीलता, अत्यन्त बेकली, अत्यन्त
तन्द्रा और निद्राका होना, ये सब लक्षण होते है
॥ २९ ॥

हृत्कंठरोगसंमोहश्छादिरंगरुजा ज्वरः ।
नृष्णाकासशिरःशूलमेतद्विक्षेपल-
क्षणम् ॥ ३० ॥

विक्षेपक रोगमे हृदय और कंठमे पीडा, मोह,
वमन, समस्त शरीरमे पीडा, ज्वर, तृषा खांसी और
शिरमे पीडा ये सब लक्षण होते है ॥ ३० ॥

चिकित्सा ।

मद्यं सौवर्चलं व्योषं युक्तं किञ्चिज्ज-
लान्वितम् । जीर्णमद्याय दातव्यं
वातपानात्ययापहम् ॥ ३१ ॥

काला नमक, सोठ, मिरच और पीपल इनको
एकत्र कुछेक जलके साथ पीसकर मदिराके साथ
जीर्ण मद्यवालेको देवे तो वातज पानात्यय दूर होता
है ॥ ३१ ॥

योजयेन्मातुलुङ्गाम्लदाडिमैः पान-
काऽपि । स्निग्धात्मलवणाम्लांश्च
रसाभ्राङ्गलजाञ्च शुभान् ॥ ३२ ॥

इसमे विजौरा नींबू, इमली और खट्टा अनार
इनका पानक (पन्ना) बनाकर देवे तथा स्निग्ध,
अम्ल और लवण रसवाले पदार्थोंके साथ जांगल
जीवोंका मांसरस देवे ॥ ३२ ॥

सूक्तं सौवर्चलं शृंगी त्र्यूषणार्द्रकदी-
प्यकैः । मद्यं पीत्वा जयत्युग्रं पव-
नोत्थं मदात्ययम् ॥ ३३ ॥

सूक्त (सिरका), काला नमक, काकडाशिगी,
त्रिकुटा, अदरख और अजवायन इनके साथ मद्यको
पानसे वातजनित मदात्यय दूर होता है ॥ ३३ ॥

पित्तान्वये मधुरवर्गकषायसिद्धं मद्यं
हितं समधुशर्करमिष्टगन्धि । पीत्वा
च मद्यमपि चक्षुरसप्रगाढं किञ्चित्
क्षणस्थितमथोल्लिखितव्यमेव ॥ ३४ ॥

पित्तजनित मदात्यय रोगमे मधुर वर्गकी औष-
धियोंके द्वारा काथ बनाकर उत्तम गंधवाली मदिरामे
मिलाकर और उसमे शहद तथा मिश्री डालकर पीवे।
अथवा मदिरा और बहुतसे ईखके रसको पीकर
थोड़ी देर ठहरकर वमन करे ॥ ३४ ॥

सतीनमुद्गमिश्रान् वा दाडिमामल-
कान्वितान् । द्राक्षामलकाखजूरपरू-
षकरसेन वा । कल्पयेत्तर्पणान् यूषान्-
सांश्च विविधात्मकान् ॥ ३५ ॥

मटर, मूंग अथवा अनार और आमले या दाख,
आमले, खजूर और फालसे इनके रसोंके द्वारा तृप्ति-
कारक यूप और अनेक प्रकारके रस बनाकर देवे
॥ ३५ ॥

पित्ते क्षौद्रसितायुक्तं मद्यमद्भोदकं
पिबेत् । पित्तपानात्यये योज्या सर्व-
तश्च क्रिया हिमाः ॥ ३६ ॥

पैत्तिक मदात्ययमे शहद और मिश्रीके साथ
आधा जल मिली हुई मदिरा पीवे। पित्तज पानात्ययमे
सब प्रकारकी शीतल क्रिया करे ॥ ३६ ॥

वमनद्रव्यसंयुक्तमद्येनोल्लेखनं हितम् ।
पानरोगे कफोद्धूते लङ्घनञ्च यथाब-
लम् । दीपनीयौषधोपेतं पिबेन्मद्यं
समाहितः ॥ ३७ ॥

कफजनित मदात्ययरोगमे वमनकारक औषधि-
योको मदिरामे मिलाकर उससे वमन करना हित-
कारी है और बलानुसार लंघन करावे तथा अग्निको
दीपन करनेवाली औषधियोंके साथ मद्य पीवे ॥ ३७ ॥

त्रिफलाया रसो वाऽपि व्योषचूर्ण-
समन्वितः । शुष्कमूलकजो यूषः
कौलित्थो वा मधूत्कटः । यवात्रवि-
कृतिर्योज्या जाङ्गलान्नकृतानि च ॥ ३८ ॥

त्रिफलेके रसमें त्रिकुटेका चूर्ण डालकर सेवन
करे या सूखी मूलीका यूप या कुलथीका यूष, तीत्र
मदिरामे मिलाकर पीवे अथवा जौका यूप या जौकी
मदिरा और जांगल देशके जीवोंका मांसरस पीवे
॥ ३८ ॥

अष्टाङ्ग लवण ।

सौवर्चलमजाजी च वृक्षाम्लं साम्लवे-
तसम् । त्वगेलामारिचार्थांशं शर्करा-
भागयोजितम् ॥ ३९ ॥ एतल्लवणम-
ष्टाङ्गमग्निसन्दीपनं परम् । मदात्यये
कफप्राये दद्यात् स्रोतोविशुद्धये ॥ ४० ॥

काला नमक १ भाग, जीरा, तित्तिडी, अमलवेत,
दालचीनी, इलायची और काली मिर्च ये प्रत्येक
आधा भाग और मिश्री एक भाग लेवे, सबको
एकत्र कूट पीस लेवे तो अष्टांग लवण तैयार होता
है । यह अष्टांग लवण—अग्निको दीपन करनेवाला
है । इसको स्रोतोके शुद्ध करनेके लिये कफजनित
मदात्यय रोगमे देवे ॥ ३९ ॥ ४० ॥

सर्वजे सर्वमेवेदं प्रयोक्तव्यं चिकित्स-
कैः । आभिः क्रियाभिः सिद्धाभिः
शान्तिं याति मदात्ययः ॥ ४१ ॥

त्रिदोषजनित मदात्यय रोगमें उपरोक्त सर्वदोष
नाशक चिकित्सा करनी चाहिए । इस प्रकार विधि-
पूर्वक चिकित्सा करनेसे मदात्यय रोग शांत होता है
॥ ४१ ॥

न चेन्मद्यक्रमं हित्वा क्षीरमस्य प्रयो-
जयेत् । लङ्घनाद्यैः कफे क्षीणे जाते
दौर्बल्यलाघवे ॥ ४२ ॥ ओजस्तुल्य-
गुणं क्षीरं विपरीतञ्च मद्यतः । क्षीर-
प्रयोगे मद्यञ्च क्रमेणाल्पाल्पमाच-
रेत् ॥ ४३ ॥

मदिराका क्रम छोडकर दूध नहीं देना चाहिए ।
जब लंघनादिसे कफ क्षीण होजावे और दुर्बलता
तथा लघुता प्राप्त होजावे तब ओजके समान गुणों-
वाला गौका उत्तम दूध मदिरासे विपरीत देना
चाहिए । दूध अथवा मदिरा थोड़ी २ देनी चाहिए
॥ ४२ ॥ ४३ ॥

मन्थः खर्जूरमृद्धीकावृक्षाम्लाम्लिक-
दाडिमैः । परूषकैः सामलकैर्युक्तो
मद्यविकारनुत् ॥ ४४ ॥

खजूर, दाख, तिनित्ती, इमली, अनार, फालसे
और आमले इनका मन्थ बनाकर सेवन करे तो
मदिराके विकार दूर होते हैं ॥ ४४ ॥

चव्यादिचूर्ण ।

चव्यं सौवर्चलं हिङ्गु जीरकं विश्वदी-
प्यकम् । चूर्णं मद्येन दातव्यं पाना-
त्ययरुजापहम् ॥ ४५ ॥

चव्य, काला नमक, हींग, जीरा, साठ और अज-
मोद इनका चूर्ण मदिराके साथ सेवन करे तो पाना-
त्यय रोग दूर होता है ॥ ४५ ॥

मधुत्रिफलागुडार्द्रकयोग ।

मधुना हन्त्युपयुक्ता त्रिफला रात्रौ
गुडार्द्रकं प्रातः । सप्ताहात् पथ्यभुजो
मदमूर्च्छाकामलोन्मादान् ॥ ४६ ॥

रात्रिमे त्रिफलेके चूर्णको शहदके साथ और प्रातःकाल-गुडके साथ अदरखको भक्षण करे तथा पथ्यसे रहे तो सात दिनमे मद्, मूर्च्छा, कामला और उन्मादरोग नष्ट होता है ॥ ४६ ॥

अहानि सप्त चाष्टौ च नृणां पाना-
त्ययं स्मृतम् । पानं हि भजते जीर्ण-
मत ऊर्ध्वं विमार्गम् ॥ ४७ ॥

मनुष्योके पानात्यय रोग सात या आठ दिनतक रहता है फिर जीर्ण होकर अन्य गतिको प्राप्त हो जाता है ॥ ४७ ॥

सगुडः कूष्माण्डकरसः शमयति म-
दमाशु मदनकोद्रवजम् । धतूरकं च
दुग्धं शर्कराश्च पानयोगेन ॥ ४८ ॥

पेठेके रसमे गुड डालकर पीनेसे मैनफल और कोदोका मद् शीघ्र दूर होता है । दूधमे मिश्री डालकर पीवे तो धतूरेका मद् दूर होता है ॥ ४८ ॥

सच्छदिमूर्च्छातिसारं मद् पूगफलोद्भ-
वम् । सद्यः प्रशमयेत्पातमानृतृषेर्वा-
रि शीतलम् ॥ ४९ ॥

पेटभरकर शीतल जल पीनेसे वमन, मूर्च्छा, अतीसार और सुपारीका मद् दूर होता है ॥ ४९ ॥

वन्यकरीषघ्राणाज्जलपानाल्लवणभक्ष-
णादपि च। शाम्यति पूगफलमदश्चूर्-
णरुजा शर्कराकवलात् ॥ ५० ॥

आरने उपलोको सूघनेसे या जलको पीनेसे अथवा नमकको भक्षण करनेसे सुपारीका मद् दूर होजाता है, मिश्रीका कवल धारण करनेसे चूनेका मद् दूर होता है ॥ ५० ॥

मद्यं पीत्वा यदि • ना तत्क्षणमवलोढि
शर्करां सवृताम् । जातु न मदयति
मद्यं मनागपि प्रथितं जीर्णमपि ॥ ५१ ॥

मद्यको पीकर जो तत्काल ही घीमे मिश्री मिलाकर खाय तो अत्यन्त तीक्ष्ण मदिरा भी जीर्ण हो जाती है ॥ ५१ ॥

कटुफलमुस्तुगुडूचीमापैः क्रमविव-
धितैश्च तत्सर्वम् । चर्वितसुखवृत्तमात्रं
हन्याद्गन्धं सुराप्रभवम् ॥ ५२ ॥

कायफल १ मागे, नागरमाथा २ मागे और गिलांय ३ मागे इनको मद्यपानके पश्चान् गुखमे डालकर चावे तो मुखकी गन्ध दूर होती है ॥ ५२ ॥

पथ्याक्वाथेन संसिद्धं घृतं धात्रीरसेन
वा । सर्पिः कल्याणकं वापि मदमू-
र्च्छापहं पिबेत् ॥ ५३ ॥

हरडके काथमे अथवा अमलोंके रसमें घीको पकाकर सेवन करे तो मद् और मूर्च्छा सब दूर होती है ॥ ५३ ॥

शतावरीपुनर्नवादिघृत ।

शतावरीसवृश्वोवयष्टिकल्कैः शृतं घृ-
तम् । पयः पुनर्नवाक्वाथे पानात्यय-
मपोहति ॥ घृतं पुष्टिकरं पानान्म-
द्यपानहतौजसः ॥ ५४ ॥

शतावर, पुनर्नवा और मुलंठीके कल्कके द्वारा दूध और पुनर्नवाके काथमे घृतको पकावे । यह घृत पुष्टिकारक और मदात्यय रोगको दूर करताहै ॥ ५४ ॥

ये च नृपणादयो रोगास्ते निवार्याः
स्वभेषजैः । मद्यप्रक्षीणदेहस्य वस्तयः
सानुवासनाः । अभ्यङ्गात्सादनस्नान-
सर्पिःक्षरिनिषेवणम् ॥ ५५ ॥

मदात्ययमें तृपा आदि जो रोग है उन उनकी औपधियोंसे दूर करना चाहिए । मद्यसे क्षीण देह-वाले मनुष्योको अनुवासनवस्ति, अभ्यंग, उत्सादन, स्नान और घृत, दूधका पान करना मद्यके दोषको दूर करता है ॥ ५५ ॥

जलप्लुतश्चंदनभूषिताङ्गः स्रग्वी सभ-
क्तां पिशितोपदंशाम् । पिबेत्सुरां
नैव लभेत रोगान्मनोवघातांश्च मद्
न याति ॥ ५६ ॥

जो जलमे गोता मारकर स्नान करते हैं, शरीरको चन्दनादि पदार्थोंसे विभूषित करते हैं, भात और मांस

तथा उपदृश (चाट) के साथ मदिराको पान करते है वह मनको नष्ट करनेवाले मदको प्राप्त नहीं होते ५६

यं दोषमधिकं पश्येत्तमादौ प्रतिकारयेत् । कफस्थानानुपूर्व्या वा तुल्यदोषे मदात्यये ॥ ५७ ॥

मदात्यय रोगमें जौनसा दोष अधिक दीखे उसीको प्रथम निवारण करे अथवा समान दोषवाले मदात्ययमें कफस्थानके आनुपूर्वतापूर्वक चिकित्सा करे ५७

त्याज्य रोगी ।

कान्तिश्च हीना च विहनीकर्णौ जिह्वातिनीला दशनावली च । नेत्रे तु रक्ते शुक्रपक्षपति कृष्णाधरौ यत्र विवर्जनीयः ॥ ५८ ॥

जिसके देहकी कान्ति नष्ट होजाय, कानोसे ठीक नहीं सुनाई देवे, जीभ और दांतोकी पंक्ति अत्यन्त नीली पड़जाय, नेत्र लाल अथवा तोतेके पंखकी समान पीले होजायँ और होठ काले पड़जायँ ऐसे मदात्ययरोगवालेको त्यागना उचित है ॥ ५८ ॥

इति श्रीवङ्गसेने भापाटीकायां पानात्ययपरमदपानाजीर्णपानविभ्रमाधिकारसम्पूर्ण ।

अथ दाहरोगनिदानाधिकार ।



त्वचं प्राप्तः स पानोष्मा पित्तरक्ताभिमूर्च्छितः । दाहं प्रकुरुते घोरं पित्तवत्तत्र भेषजम् ॥ १ ॥

मद्यपान करनेसे दूषित पित्तकी गरमी पित्त और रक्तका बढाकर त्वचामे दाहको उत्पन्न करती है। उस दाहको मद्यजनित कहते हैं । इसमें पित्तकी समान चिकित्सा करनी चाहिए ॥ १ ॥

चिकित्सा ।

शतधौतघृताभ्यक्तं दिह्यात्तु यवसक्तभिः । कोलामलकसंयुक्तैर्दाडिमांम्लेन बुद्धिमान् ॥ २ ॥

दाहसे पीडित मनुष्यके शरीरमे सौवार धुले हुए घीका लेप करे । तथा जौके सत्तुओका शरीरपर लेप करे । वेर और आमलोंको एकत्र पीसकर या अनार और इमलीको एकत्र पीसकर लेप करे ॥२॥

छादयेत्तस्य सर्वाङ्गमारणालार्द्रवाससा । लामज्जेनाथ शूक्तेन चन्दनेनानुलेपयेत् ॥ ३ ॥

खस्रमे कॉजीका लेप करके उससे सर्वांगको आच्छादित करे । अथवा लामज्जक (खस भेद) नामक सुगन्धित तृण या सिरका अथवा चन्दनका अनुलेपन करे ॥ ३ ॥

चन्दनाम्बुकणास्यन्दितालवृन्तोपवीजितः । सुप्यादाहादितांभोजकदलीदलसंस्तरे ॥ ४ ॥

चन्दनको जलमे पीसकर उस जलसे ताडके पंखेको भिजोकर उससे दाहरोगीकी पवन करे तथा कमल और केलेके पत्तोपर शयन करावे ॥ ४ ॥

परिषेकावगाहेषु व्यञ्जनानाञ्च सेवने । शस्यते शिशिरं तोयं तृष्णादाहोपशान्तये ॥ ५ ॥

दाहसे पीडित मनुष्यके शरीरपर शीतल जलका छीटा देना, शीतल जलमे घुसकर स्नान करना, पंखे पर शीतल जलको छिडककर पवन करना, ये सब तृषा और दाहको शमन करते हैं ॥ ५ ॥

क्षीरैः क्षीरकषायैश्च सुशतैश्चन्दनान्वितैः । अन्तर्दाहं प्रशमयेदतैश्चान्यैः सुशीतलैः ॥ ६ ॥

दूध और दूधवाले वृक्षोंका सुशीतल चन्दनयुक्त काथसे और अन्यान्य शीतल प्रयोगोसे अन्तर्दाह शमन होती है ॥ ६ ॥

फलनीलाश्रसेव्याम्बु हेमपत्रं कुटंनटम् । कालीयकरसोपेतं दाहे शस्तं प्रलेपनम् ॥ ७ ॥

फूलप्रियंगु, लोध, लामज्जक, सुगन्धवाला, धतूर के पत्ते, चन्दन इनको अगरके रसमें पीसकर लेप करनेसे दाह शमन होती है ॥ ७ ॥

श्लक्ष्णसूक्ष्मकृतो लेपश्चन्दनस्यापि दाहनुत् । त्वग्जातस्योष्मणो रोधाच्छीतकृत्वमथागुरु ॥ ८ ॥

सफेद चन्दनको बारीक पीसकर उसका पतला लेप करनेसे दाह दूर होती है । त्वचागत गर्मीके रुकनेसे शरीरकी त्वचा शीतल होजाती है । शीतके होने पर शरीरपर अगरका लेप करे ॥ ८ ॥

ह्रीवैरपद्मकोशीरचन्दनक्षोदवारिणा । सम्पूर्णाभवगाहित द्रोणीं दाहादितो नरः ॥ ९ ॥

सुगन्धवाला, पद्माख, खस और चन्दन इनको जलमें पीसकर उस जलको डेगंभ भरकर उसमें दाह पीड़ित मनुष्य गोता मारकर स्नान करे ॥ ९ ॥

आमलक्यादिखण्ड ।

आमलक्याश्च कुडवं सुस्वित्रं निष्कुलीकृतम् । प्रस्थेन पयसा पिष्ट्वा पचेत्प्रस्थे च सर्पिषि ॥ १० ॥ प्रस्थं दत्त्वा सितायाश्च वासापलचतुष्टयम् । जीरकं मरिचं कृष्णां चातुर्जातं क्षिपेत्पुनः ॥ ११ ॥ कर्षं दत्त्वा ततः स्निग्धे भाण्डे धृत्वोपभोजयेत् । दाहं सुदुर्जयं हन्ति मूर्च्छां छर्दिं चिरोत्थिताम् ॥ १२ ॥

उत्तम बड़े बड़े ३२ तोले आमले लेकर उनकी गुठली अलग करके एक प्रस्थ दूधमें पीसकर एक प्रस्थ घीमें पकाकर उसमें मिश्री १ प्रस्थ, अड़सा ४ पल, जीरा, कालीमिरच, पीपल, दालचीनी, इलायची तेजपात और नागकेशर इन प्रत्येक औषधियोंका कल्क एक एक तोला डाले जब पककर तैयार होजाय तब उतारकर चिकने वासनमें भरकर रख देवे । यह आमलक्यादि खंड-दुर्जयदाह, मूर्च्छा और बहुत दिनोंकी वमनको भी दूर करता है ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥

मातुलुङ्गरसक्षौद्रप्रेदहं दाहनाशनम् । शस्यंते चात्र पानानि शीतानि विविधानि च ॥ १३ ॥

विजौरेनीबूका रस और गहद इनका लेप दाहको शमन करता है । दाहरोगमें विविध प्रकारके शीतल पानीय पदार्थ सब हितकारी है ॥ १३ ॥

शीतवातजलस्पर्शः शीतान्युपवना-नि च । पित्तज्वरहरं यच्च दाहे तत्कार्यमिष्यते ॥ १४ ॥

शीतल पवन, शीतल जलका स्पर्श, शीतल उपवन, (पुष्पवार्टिका) और जो जो पदार्थ पित्तज्वरको हरनेवाले हैं वे सब दाहरोगमें हितकारी हैं ॥ १४ ॥

वाप्यः कमलहासिन्यो जलयन्त्रगृहाः शुभाः । नार्थश्चन्दनदिग्धाङ्गयो दाहदेज्यहरा मताः ॥ १५ ॥

वाचडी, जिनमें कमल खिल रहे हैं ऐसे निर्मल जलके सरोवर, जिनमें जलके फुहारे लगरहे हैं ऐसे घर, जिन्होंने चन्दनादिसे अपने शरीरको अलंकृत किया हो ऐसी स्त्रियोंका आलिंगन ये सब दाहको शमन करते हैं ॥ १५ ॥

कुशादिघृत तैल ।

कुशादिशालिपर्णीभिर्जीवकर्षभसा-धितम् । तैलं घृतञ्च दाहघ्नं वातापित्तविनाशनम् ॥ १६ ॥

कुशादिगणकी औषधियों, शालिपर्णी, जीवक और ऋषभक इन औषधियोंके द्वारा तैल या घृतको सिद्ध करे । यह तैल, या घृत-दाह और वातापित्तको नष्ट करता है ॥ १६ ॥

रक्तजदाह ।

कृत्स्नदेहातुगं रक्तमुद्रितं दहति ध्रुवम् । संचूप्यते तृष्यते वा ताम्ना-भस्ताम्रलोचनः । लोहगन्धाङ्गवदनो वह्निर्नैवावकीर्यते ॥ १७ ॥

जब सम्पूर्ण शरीरका रुधिर दूषित होकर दाहरांगको उत्पन्न करता है तब उस दाहसे पीड़ित मनुष्यके शरीरमें चूसनेकीसी पीडा होती है । प्यास अधिक लगती है, नेत्र तापके समान लाल होतेहैं, मात्र और मुखमें

लोहेके समान गन्ध आती है और रोगी अग्निसे जले हुएके समान अत्यन्त दाहयुक्त हो तो इसको रक्तजदाह जानना चाहिए ॥ १७ ॥

चिकित्सा ।

तं विलंघ्य विधानेन संसृष्टाहारमा-
चरेत् । प्रशाम्यत्य वा दाहो रसै-
स्तुष्टस्य जाङ्गलैः ॥ १८ ॥ शाखा-
श्रयं युथान्यायं रोहिणीं व्यधये-
च्छिराम् ॥ १९ ॥

इस दाहरीगीको विधिपूर्वक लंघन कराकर पश्चात् संसृष्ट आहार अर्थात् उत्तम स्निग्ध और शीतल हल्का अन्न भोजनके लिये देवे। अथवा जांगल जीवों के मांसके रसको देवे। रसके द्वारा तृप्त होनेसे दाह शमन होती है। जां इस प्रकार करनेसे भी दाह शांत न हो तो रोहिणी नामक गिरा (नस) को छिदवाकर फस्त खुलवावे ॥ १८ ॥ १९ ॥

तृष्णानिरोधज दाह ।

पित्तज्वरसमः पित्तात् स चाप्यस्य
विधिः स्मृतः ॥ २० ॥ तृष्णानुरो-
धादब्धातौ क्षीणे तेजस्समुद्भवः ।
स बाह्याभ्यन्तरं देहं प्रदेहन्मन्दचेत-
सः । संशुष्कगलताल्वोष्ठो जिह्वां
निष्कृष्य वेपने ॥ २१ ॥

पित्तकी दाहमें पित्तज्वरके समान लक्षण होते हैं इस कारण पित्तजदाहमें पित्तज्वरके समान चिकित्सा करनी चाहिये। प्यासके समय जलको न पीनेसे शरीरकी जलधातुकें क्षीण होनपर तेज वृद्धिको प्राप्त होकर शरीरके बाहर तथा भीतर दाहको उत्पन्न करता है इससे गला, तालु और होठ सूख जाते हैं रोगी जीभको बाहर निकालता है, सुध नहीं रहती और कांपता है ॥ २० ॥ २१ ॥

चिकित्सा ।

पाययेत्काममम्भश्च शर्करांभः पयो-
ऽपि वा । क्षीरामिक्षुरसं वापि वितरे-
च्चरितं विधिम् ॥ २२ ॥

तृपाजनित दाहमें यथेच्छ जल पीवे, अथवा खांडका शरबत बनाकर पीवे अथवा दूधमें ईखका रस मिलाकर (यदि ग्रीष्म ऋतुहो तो) पीवे ॥ २२ ॥

रक्तपूर्णकोष्ठजदाह ।

असृजा पूर्णकोष्ठस्य दाहोऽन्यः स्या-
त्सुदुस्तरः । विधिः सद्योत्रणीयोक्त-
स्तस्य लक्षणमेव च ॥ २३ ॥

शक्के लगनेसे रुधिर निकलकर कोष्ठमें भरजाय तब अत्यन्त दुस्तर दाहरीग उत्पन्न होता है। इसके लक्षण सद्योत्रणके समान होते हैं इसलिये इसकी सद्योत्रणोक्त चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २३ ॥

धातुक्षयोत्थो यो दाहस्तेन मूर्च्छानृषा-
न्वितः । क्षामस्वरः क्रियाहीनः स
सीदेद्द्रुशपीडितः ॥ २४ ॥

रसादि धातुक्षयजनित दाहमें मूर्च्छा, प्यास, स्वर-
भंग और रोगी चष्टारहित होजाता है। इस दाहसे पीडित रोगी उत्तम चिकित्सा न करावे तो मृत्युको प्राप्त होता है ॥ २४ ॥

क्षतजोऽनश्रुतश्चान्यः शोचतो वाप्य-
नेकधा । तेनान्तर्देह्यतेऽत्यर्थं तृष्णा-
मूर्च्छाप्रलापकम् ॥ २५ ॥

क्षतके होनेसे जो दाह होती है उसमें भूख बहुत कम होजाती है और अनेक प्रकारके शोकके कारण जो दाह होती है उसमें शरीरके भीतर अत्यन्त दाह होती है तथा प्यास मूर्च्छा और प्रलाप यह लक्षण होते हैं ॥ २५ ॥

भर्माभिघातजोऽप्यस्ति सोऽसाध्यः
सप्तमो मतः । सर्व एव च वर्ज्याः स्युः
शीतगात्रेषु देहिनः ॥ २६ ॥

मर्मस्थानमें चोट लगनेसे दाह होती है वह सात
वीं दाह असाध्य है, सब दाहोंमें शीतल शरीरवाला
रोगी असाध्य है ॥ २६ ॥

चिकित्सा ।

तामिष्टविषयोपेतं सुहृद्गिराभिसम्मि-
तम् । क्षीरमांसरसाहारं विविनो-
क्तं साधयेत् ॥ २७ ॥

धातुक्षयादिजन्य दाहरोगको अनेक प्रकारके इष्ट विषयोसे जीते तथा मित्रमंडलीके साथ बैठकर उक्त विधिसे दूध और मांसरसका भोजन करे ॥ २७ ॥

सर्व एव विवर्ज्यास्तु शीतगात्रेषु देहिषु । प्रशान्तोपद्रवो वापि शोधनं प्राप्तमाचरेत् ॥ २८ ॥

सम्पूर्ण शीतल शरीरवाले दाहरोगी त्याज्य हैं । दाहरोगमें उपद्रवोंके शमन होने पर शोधन क्रिया करनी चाहिए ॥ २८ ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकाया
दाहाधिकार सम्पूर्ण ।

अथ उन्मादरोगाधिकार ।



मदयन्त्युद्धता दोषा यस्मादुन्मार्गमाश्रिताः । मानसोऽयमतो व्याधिरुन्माद इति कीर्तितः ॥ १ ॥

वातापित्तादि दोष अत्यन्त बढ़कर विषयगामी होकर मनोवह (मनको बढानेवाली) धमनियोंमें प्रवेश करके मनमें भ्रान्ति उत्पन्न करते हैं । इसको उन्माद रोग कहते हैं । यह मनको विकृत कर देता है अतएव यह मानसिक रोग है ॥ १ ॥

एकैकशः सर्वशश्च दोषैरत्यर्थस्मृच्छितैः । मानसेन च दुःखेन स पञ्चविध उच्यते ॥ २ ॥

अत्यन्त कुपित हुए वातादि दोषोंसे पृथक् २ तीन तीन सन्निपातसे और मानसिक दुःखसे एक ऐसे उन्मादरोग पांच प्रकारका है ॥ २ ॥

विषाद्रवाति षष्ठस्तु यथास्वन्तेषु भेषजम् । स चाप्रबुद्धस्तरुणो मदसंज्ञां विभार्त्ति च ॥ ३ ॥

और एक विष भक्षण करनेरो होता है उसको छठा उन्माद समझना चाहिए । इसकी यथादोषानुसार

चिकित्सा करनी चाहिये । ज्वरतक यह रोग दूर नहीं तबतक उसको मर गंगा कहते हैं ॥ ३ ॥

उन्मादके सामान्यकारण और सम्प्रति ।

विरुद्धदुष्टाशुचिभोजनानि प्रधर्षणं देवगुरुद्विजानाम् । उन्मादहेतुर्भयहर्षपूर्वा मनोऽभिघातो विषमाश्र चेष्टाः ॥ ४ ॥

संयोगविरुद्ध द्रव्य, दूषित पदार्थ और धर्षविरुद्ध द्रव्योंका भोजन करनेमें, देवता और गुरुजन आदि का अपमान करनेसे, भय और हर्षके वाग्ण मनमें चोटके लगनेमें अथवा ज्ञानेन्द्रियोंकी चेष्टा करनेसे उन्मादरोग उत्पन्न होता है ॥ ४ ॥

तेरल्पसत्त्वस्य मलाः प्रदुष्टा बुद्धिर्निवासं हृदयं प्रदूष्य । स्मृतांस्याधिष्टाय मनोवहानि प्रमोहयन्त्याशु नरस्य चेतः ॥ ५ ॥

पूर्वोक्त कारणोंमें दूषित वात पित्त और कफ अल्प सत्त्व (दिल कमजोर) वाले मनुष्योंके बुद्धिके निवास स्थान मन और हृदयको दूषित करके और मनोवह स्मृतांमें प्रवेश करके अन्तःकरणमें विकार उत्पन्न करते हैं ॥ ५ ॥

उन्मादका पूर्वरूप ।

धीविभ्रमः सत्त्वपरिप्लवश्च पर्याकुला दृष्टिरधीरता च । अबद्धवाक्यं हृदयश्च शून्यं सामान्यमुन्मादगदस्य लिङ्गम् ॥ ६ ॥

बुद्धिमें भ्रम, चित्तमें चंचलता, दृष्टिको इधर उधर चलाना, अधैर्य, हृदयमें शून्यता और वृथा बकवाद या कुलका कुल बोलना यह उन्मादरोगके सामान्य लक्षण है ॥ ६ ॥

वातजउन्मादके लक्षण ।

रूक्षाल्पशीतान्नविरेकधातुक्षयोपवासैरनिलोऽतिबुद्धः । चिन्तादिदुष्टं हृदयं प्रदूष्य बुद्धिं स्मृतिं चाप्यु-

पहन्ति शीघ्रम् ॥ ७ ॥ अस्थानहा-
स्यस्मितगीतनृत्यवागङ्गविक्षेपणरोद-
नानि । पारुष्यकार्श्यारुणवर्णता च
जीर्णे बलं चानिलजस्य रूपम् ॥ ८ ॥

रूक्ष, गीतल और थोडा भोजन करनेसे, विरेक
(जुगुप्सु) धातुक्षय और उपवास इन कारणोंसे वृद्धिको
प्राप्त हुई वायु-चिन्ता जोकादिसे आकुलित होकर
अंतःकरणको दूषित करके बुद्धि और स्मरणशक्तिका
नाश करके उन्माद रोगको उत्पन्न करती है । इसमें
रोगी बिना कारण ही हँसता है, मन्द २ मुसकाता है,
बिना समयके नृत्य और गान करता है, अधिक
बोले, अंगोंको इधर उधर फेंकता है, रोता है, बोलनेसे
खरखरा, शरीर कृश और लाल होजाता है और
भोजनके पचनेपर रोगका अधिक बल होता है । ये
वातज उन्मादके लक्षण जानने ॥ ७ ॥ ८ ॥

पित्तजउन्मादके लक्षण ।

अजीर्णकटुम्लविदाह्यशक्तिर्भोज्यैश्चि-
तं पित्तमुदीर्णवेगम् । उन्मादस्युग्रम-
नात्मकस्य हृदि स्थितं पर्ववदाशु कु-
र्यात् ॥ ९ ॥ अमर्षसंरम्भविनग्रभा-
वाः सन्तर्जनाभिद्रवणोष्ण्यचोषाः ।
प्रच्छायशीतान्नजलाभिलाषाः पीता
च भा पित्तकृतस्य लिङ्गम् ॥ १० ॥

अजीर्ण, कटु, अम्ल, दाहकारक और उष्ण ऐसे
अधिक भोजन करनेसे पित्त वृद्धिको प्राप्त होकर
इन्द्रिय लोलुप मनुष्योंके मनोवह धमनियोंमें प्रवेश
करके अंतःकरणको दूषित करके उन्माद रोगको
उत्पन्न करता है । इस रोगमें असहनशीलता, हाथ
पार्वीका पटकना, तंग हो जाना, भयभीत होना,
भागना, दौडना, शरीरका अधिक गरम होना,
छायामे जानेकी इच्छा, गीतल अन्न और शीतल जल
पीनेकी अभिलाषा होना और शरीरकी पीली कांति
हो जाना, ये सब पित्तज उन्मादके लक्षण जानने
॥ ९ ॥ १० ॥

कफजउन्मादके लक्षण ।

संप्रणैर्मन्दविचेष्टितस्य सोपमा क-
फो मर्मणि संप्रवृद्धः । बुद्धिं स्मृतिं

चाप्युपहन्ति चित्तं प्रमोहयन् संजन-
येद्विकारम् ॥ ११ ॥ वाक्चेष्टितं मन्द-
मरोचकश्च नारीविविक्तप्रियता च
निद्रा । छर्दिश्च लाला च बलश्च भुक्ते
नखादिशोकल्यश्च कफात्मके स्यात् ॥ १२ ॥

थोडी भूखमें पेटभर कर भोजन करनेसे, परि-
श्रम न करनेसे मनुष्योंके पित्तसहित कफ हृदयमें
अत्यन्त बढ़कर बुद्धि और स्मरणशक्तिको नष्ट करके
चित्तको विकृत कर उन्मादरोगको उत्पन्न करता है ।
यह उन्मादरोगी थोडा बोलता है, भोजनादिमें अरुचि
होती है, स्त्रीमें आसक्त हो, अधिक निद्रामे मग्न रहे,
वमन और लार अधिक गिरे, भोजन करनेपर
रोगका अधिक जोर हो । ये कफज उन्मादके लक्षण
जानने ॥ ११ ॥ १२ ॥

सन्निपातजउन्मादके लक्षण ।

यः सन्निपातप्रभवोऽपि घोरः सर्वैः
समस्तैरपि हेतुभिः स्यात् । सर्वाणि
रूपाणि बिभर्त्ति तादृग्विरुद्धभेष-
ज्यविधिर्विवर्ज्यः ॥ १३ ॥

सन्निपातज उन्मादरोग सब प्रकारके मिलेहुए
कारणोंसे उत्पन्न होता है । इसकारण यह सब लक्ष-
णायुक्त होता है, इस महाभयंकर विरुद्ध चिकित्स-
नीय सन्निपातिक उन्मादरोगीको वैद्य त्याग देवे १३

शोकजउन्मादके लक्षण ।

चौरैर्नरेन्द्रपुरुषैररिभिस्तथान्यैर्वित्रा-
सितस्य धनवान्धवसंक्षयाद्वा । गाढं
क्षते मनसि च प्रियया रिरंसोर्जाये-
त चोत्कटतरो मनसो विकारः ॥ १४ ॥
चित्रं ब्रवीति च मनोऽनुगतं विसंज्ञो
गायत्यथो हसति रोदिति चापि
मूढः ।

चोर, राजपुरुष, शत्रु अथवा अन्य किसीके
त्राससे तथा धन और बन्धुके नाश होनेसे, अथवा
इष्ट प्रियजनोके न मिलनेसे मनुष्योंका अन्तःकरण
अत्यन्त क्षोभित होकर घोर मानसिक विकार
अर्थात् शोकजउन्मादको उत्पन्न करता है । ये

रोगाक्रान्त मनुष्य ज्ञानशून्य होकर नानाप्रकारकी गुप्त कथाओको प्रकाशित करता है। तथा गीत गाता, हँसता, रोता तथा मूर्ख हो जाता है ॥ १४ ॥

विषजउन्मादके लक्षण।

रक्तक्षणो हतबलेन्द्रियभाः सुदीनः
श्यावाननो विषकृतेन भवेद्विसं-
ज्ञः ॥ १५ ॥

विषजउन्मादरोगीके नेत्र लाल होजाय, मुख काला पडजाय, बल, इन्द्रिये और शरीरकी कांति जाती रहती है तथा वनितता और ज्ञानशून्यता हो जाती है ॥ १५ ॥

उन्मादके असाध्य लक्षण।

अवाङ्मुखस्तून्मुखो वा क्षीणमांस-
बलो नरः । जागरूको ह्यसन्देहसु-
न्मादेन विनश्यति ॥ १६ ॥

जो उन्मादरोगी सदैव नीचेको अथवा ऊपरको जिसका मुख करे रहता है, मांस और बल क्षीण होजाय और कभी निद्रा न आवे उसको असाध्य जानता ॥ १६ ॥

चिकित्सा।

वातिके स्नेहपानं प्राग्विरेकः पित्तस-
म्भवे । कफजे वमनं कार्यं परो ब-
स्त्यादिकः क्रमः ॥ १७ ॥

वातके उन्मादरोगमे प्रथम, स्नेहपान, पित्तके उन्मादरोगमे प्रथम विरेचन, कफके उन्मादरोगमे प्रथम वमन और अन्यान्य उन्मादरोगमे प्रथम वस्त्यदि कर्म करने चाहिए ॥ १७ ॥

यच्चोपादिश्यते किञ्चिदपस्मारचि-
कित्सिते । उन्मादे तत्र कर्तव्यं सा-
मान्यादोषदृष्ययोः ॥ १८ ॥

अपस्मार रोगमे जो कुछ यत्न कहागया है वह उन्मादरोगमेभी करना चाहिए, कारण इसमे दोष और दृष्य समान हैं ॥ १८ ॥

द्रुमाग्निजलशैलभ्यो विषमेभ्यश्च तं
सदा । रक्षेदुन्मादिनं चैव सद्यः प्राण-
हरं हि तत् ॥ १९ ॥

उन्मादरोगीकी वृक्ष, अग्नि, जल, पर्वत और विषमस्थान आदिसे सदैव रक्षा करनी चाहिए क्योंकि यह तत्काल प्राणनाशक है ॥ १९ ॥

ब्राह्मीकुम्भाण्डीफलषड्ग्रंथाशंखपुष्पि-
कास्वरसाः । उन्मादहता दृष्टा पृथ-
गेते कुष्ठमधुमिश्राः ॥ २० ॥

ब्राह्मी, पेठा, वच और शंखाहुली इनके पृथक् २ स्वरसमे कूटका चूर्ण और गृहद मिलाकर सेवन करे तो उन्मादरोग दूर होता है ॥ २० ॥

चाङ्गेरीरसकाञ्जिकगुडसमभागा सु-
मार्थिताः क्रमशः । उन्मादरोगशम-
ना पीता दिवसत्रयेणैव ॥ २१ ॥

चांगेरी, खटकलका रस, कांजी और गुड ये सब समानभाग लेकर अच्छे प्रकारसे एकत्र मथकर तीन दिनतक पीनेसे उन्मादरोग दूर होता है ॥ २१ ॥

मण्डूकपर्ण्याः स्वरसः कनकदलसंयो-
जितः समभागः । शमयत्युन्मादगदं
तृणराजवल्लीरसयुक्तः ॥ २२ ॥

मण्डूकपर्णी (ब्राह्मी) के स्वरसमे धतूरेके पत्तोका स्वरस मिलाकर अथवा तृणराजवल्ली (तालवृक्ष) का रस मिलाकर सेवन करे तो उन्माद रोग शमन होता है ॥ २२ ॥

सितकुसुमबलायाः सार्धकर्षत्रयं यः
शिखरिचरणकोलं क्षीरपाकेन पक्व-
म् । पिबति तदनु शीतं प्रातरुत्थाय
नित्यं जयति झटिति घोरं व्याधि-
मुन्मादमुग्रम् ॥ २३ ॥

सफेद फूलकी खिरैटाका चूर्ण ३ ॥ कर्प, पुनर्न-
वाकी जडका चूर्ण १ तोला, दोनोको क्षीरपाककी विधिसे पकाकर शीतल करके नित्य प्रातःकाल पीवे तो अत्यन्त घोर उन्मादरोग तत्काल दूर होता है २३

सिद्धार्थकाद्यञ्जन।

सिद्धार्थको हिंशुवचाकरञ्जो देवदारु च । मञ्जिष्ठा त्रिफला धेता कटभी-
त्वक् कटुत्रिकम् । समांशानि त्रिय-

इगुश्च शिरीषो रजनीद्रयं वत्समूत्रेण
पिष्टोऽयमगदः पानमञ्जनम् ॥ २४ ॥
नस्यमालेपनञ्चैव स्नानमुद्धर्त्तनं तथा ।
अपस्मारविषोन्मादकृत्यालक्ष्मीज्व-
रापहम् ॥ २५ ॥ भूतेभ्यश्च भयं हन्ति
राजद्वारे च शस्यते । सर्पिरतेन सिद्धं
वा गोमूत्रे च तदर्थकृत ॥ २६ ॥

सफेद सरसों, हींग, वच, करंज, देवदारु, मर्जाठ,
त्रिफला, फट्करी, कटभी, ढालचीनी, त्रिकुटा, फूल-
प्रियंगू, सिरस, हल्दी और दारुहल्दी इनको बरूरी-
के मूत्रमें पीसकर पीवे या अजन लगावे, नास लेवे,
शरीरपर लेप करे स्नान करे, और इसको देहपर मले
तो अपस्मार, विष, उन्माद, कृत्या, अलक्ष्मी और ज्वर
दूर होते हैं, तथा भूतवाधा दूर होती है । राजद्वारमें
जाते समय इसका सेवन करना शुभ है । अथवा इन
सब औषधियोंके कल्कके द्वारा गोमूत्रमें घृतको
पकाकर सेवन करनेसे उपयुक्त सब गुणोंकी प्राप्ति
होती है ॥ २४-२६ ॥

दशमूलांबु सघृतं युक्तं मांसरसेन वा ।
ससिद्धार्थकचूर्णञ्च केवलं नावनं
घृतम् ॥ २७ ॥

दशमूलके काथमें घी मिलाकर अथवा मांसरस
मिलाकर सेवन करे अथवा केवल सरसोंके चूर्णमें
घी मिलाकर नास लेवे तो उन्मादरोग दूर होता
है ॥ २७ ॥

उन्मादशान्तये पेयो रसो वा तिलमा-
षजः । प्रयोज्यं सार्षपं तैलं नस्याभ्य-
ञ्जनयोः सदा ॥ २८ ॥

उन्मादको शांत करनेके लिये तिल और उडदों
का काथ बनाकर पीवे अथवा सरसोंके तेलको सदैव
नस्य और अभ्यंजनमें प्रयोग करे ॥ २८ ॥

आश्वासयेत्सुहाद्रिश्च वाक्यैर्धर्मार्थसं-
हितैः । ब्रूयादिष्टविनाशं वा दर्शये-
दद्भुतानि च ॥ २९ ॥

उन्मादरोगीको इष्टमित्रोंके द्वारा धैर्य्य प्रदान करे,
धर्म, अर्थको साधन करनेवाले वचनोमें शांत करे,

अथवा उससे इष्ट वस्तुका नाश होना कहे, या
अद्भुत पदार्थोंको दिखावे ॥ २९ ॥

बद्धं सर्षपतैलात्कमुत्तानमातपे न्यसे-
त । कपिकच्छ्राथ वा तसैर्लोहतैलजलैः
स्पृशेत् ॥ ३० ॥

उन्मादरोगीके शरीरको सरसोंके तेलसे भिजो-
कर धूपमें चित्त लिटादेवे । अथवा उसके शरीरपर
कौड़की फली लगावे या गरम लोहेको अथवा गरम
तेलको या गरम जलको लगावे ॥ ३० ॥

कशाभित्ताडयित्वा च सुबद्धं विज-
ने गृहे । रुन्ध्याञ्चेतो हि विद्वांस्तं
तथा व्रजति तत्सुखम् ॥ ३१ ॥

उन्मादरोगीको एकान्त स्थानमें बांधकर चाबुकों
की मार लगावे । इसप्रकार करनेसे जब उसको चेत
होजाय तब छोड़ देवे तो उन्मादरोगी सुखी होता
है ॥ ३१ ॥

सर्पेणोद्धृतदंष्ट्रेण दान्तैः सिंहर्गजैश्च
तम् । त्रासयेच्छस्त्रहस्तैश्च शत्रुभिस्त-
स्करैस्तथा ॥ ३२ ॥ अथवा राजपु-
रुषा बहिर्नीत्वा सुसंयतम् । त्रासये-
युर्बुधैरेनं तर्जयन्तो नृपाज्ञया ॥ ३३ ॥
देहदुःखभयेभ्यो हि परं प्राणभयं भ-
वेत् । तेन तस्य शमं याति सर्वतो
विप्लुतं मनः ॥ ३४ ॥

बिना दाँतके साँप, हाथी और व्याघ्र आदि जीवों-
से अथवा शस्त्रको हाथमें लिये हुए शत्रु अथवा तस्करो-
के द्वारा त्रास देवे । अथवा राजपुरुषोंसे अनेक प्रकार
से भयभीत करावे और अनेक प्रकारसे कष्ट देवे तथा
राजाकी आज्ञा लेकर उसके शरीर और प्राणोंको दुःख
देवे, देह दुःख भयसे प्राणभय होता है, इसप्रकार
करनेसे उसका विगडा हुआ मन फिरसे प्रकृतिमें
स्थित हांजाता है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

सततं धूपयेच्चैनं गोमांसैश्चैव पूतिभिः
॥ ३५ ॥

उन्मादरोगीको निरन्तर गोमांस आदि दुर्गन्धित
मांसोंके द्वारा धूनी देवे ॥ ३५ ॥

इष्टद्रव्यविनाशेन मनो यस्योपहन्यते।
तस्य तत्सदृशप्राप्त्या शान्त्याश्वासैः
शमं नयेत् ॥ ३६ ॥

इस वस्तुके नाश होनेसे जिस उन्मादरोगीका
मन नष्ट होजाय उसको वैसी ही वस्तु देवे या उस
की प्राप्ति कहे और शान्ति, संतोष तथा धीरज आदि-
से शमन करे ॥ ३६ ॥

कामशोकभयक्रोधहर्षेर्ष्यालोभसम्भ-
वात् । परस्परप्रतिद्वन्द्वैरेभिरेव शमं
नयेत् ॥ ३७ ॥

काम, शोक, भय, क्रोध, हर्ष, ईर्ष्या और लोभ
इनसे उत्पन्न हुए उन्मादरोगको उनके विपरीत काम-
शान्ति आदि उपायोंसे शांत करे ॥ ३७ ॥

बुद्धादोषं वयः सात्म्यं देशकालं
बलाबलम् । चिकित्सितमिदं कुर्या-
दुन्मादे भूतदोषजे ॥ ३८ ॥

वैद्यको उचित है कि, भूतज उन्माद रोगमें रोगी
के दोष, अवस्था, प्रकृति देश काल और बलाबल
को विचार कर चिकित्सा करे ॥ ३८ ॥

महपिपितृगन्धर्वैरुन्मादस्य च बुद्धि-
मान् । वर्जयेदञ्जनादीनि तीक्ष्णानि
क्रूरकर्म च ॥ ३९ ॥

मत्तार्थ, पितृ और गन्धर्व इनकी वाधासे उत्पन्न
हुए उन्मादरोगमें तीक्ष्ण अजन, तीक्ष्ण नख और
सन्पूर्ण कृमि कर्म करने त्याग देवे ॥ ३९ ॥

अपस्मारक्रियां वापि ग्रहोद्दिष्टांश्च
कारयेत् । शान्तिं दोषविशुद्धिश्च
न्नेह्वरिनभिराचरेत् ॥ ४० ॥

ग्रह प्राणित उन्मादरोगमें अपस्मारोक्त मर्ष क्रियाये
करे । तथा शान्ति, दोष विशोधन और नेह्वरिनि चं
मन कर्म करे ॥ ४० ॥

मृदुपूर्वान्तु विषये क्रियामृद्धां प्रयो-
जयेत् । शोकशान्तिमपनयेदुन्मादे
पञ्चमे विषये ॥ ४१ ॥

मिदुर्जनित उन्मादरोगमें प्रथम मृदु क्रिया करे
और शोक उन्मादरोगमें शान्ति जादि कर्म
करे ॥ ४१ ॥

उरोबाहुललाटस्थां शिरां मुक्ता प्र-
यत्नतः । निवाते शमनं युज्याद्विल्वा-
द्यम्बुकणान्वितम् ॥ ४२ ॥

उन्मादरोगीको वातरहित स्थानमें बैठकर उसके
उर, बाहु और ललाटकी युक्तिपूर्वक फस्त खुलवावे
और विल्वादि औषधियोंके काथेमें पीपलका चूर्ण
डालकर पिलावे ॥ ४२ ॥

त्र्यूषणादिवर्ति ।

त्र्यूषणं हिंगुलवणं वचाकटुकरोहि-
णी । शिरीषनक्तमालानां बीजं श्वे-
ताश्च सर्षपाः ॥ ४३ ॥ गोमूत्रपिष्टैरे-
तैस्तु वर्तिनेत्राञ्जने हिता । चातुर्थि-
कमपस्मारमुन्मादं वा नियच्छति
॥ ४४ ॥

सोंठ, मिरच, पीपल, हींग, सैधानमक, वच,
कुटकी, शिरसके बीज, करंजके बीज और सफेद
सरसो इन सबको गोमूत्रमें पीसकर बत्ती बनावे
इस बत्तीको नेत्रोंमें लगानेसे चातुर्थिक ज्वर, अप-
स्मार और उन्मादरोग दूर होता है ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

सारस्वत चूर्ण ।

कुष्ठावगन्धे लवणाजमोदे द्वे जीरके
त्रीणि कटूनि पाठा । माङ्गल्यपुष्पा
च समानचूर्ण कृत्वा च चूर्णेन वचो-
द्वेन ॥ ४५ ॥ तुल्येन युक्तं बहुशो
रसेन तद्भावितं ब्रह्मविनिर्मितायाः ।
सर्पिर्मधुभ्याश्च ततोऽक्षमात्रं लिह्या-
न्नरः सप्तदिनं हिताशी ॥ ४६ ॥ ऐश्व-
र्यमिच्छन्मनसश्च धैर्यं मेधां तथेच्छ-
न्दिगुणश्च कालम् । पठेन्नरः श्लोकस-
हस्रमहस्तद्वत् प्रयोज्यं द्विगुणश्च काल-
म् ॥ ४७ ॥ सारस्वतमिदं चूर्णं ब्र-
ह्मणा निर्मितं स्वयम् । जगद्धिताय
लोकानां दुर्मथानां विचेतसाम् ॥ ४८ ॥

कुठ, असगन्ध, सैधानमक, अजमोद, दोनो जीरे,
सोंठ, मिरच, पीपल, पाठ और जलपुष्पी इन सबको

समान भाग लेवे और सबके बराबर बचका चूर्ण लेवे। सबको एकत्र करके ब्राह्मीके रसमें कई दिनतक खरल करे। फिर इसको शहद और घीमें मिलाकर प्रतिदिन एक २ तोला प्रमाण खाय इसप्रकार सात दिनतक सेवन करे। इसके प्रभावेसे गेश्वर्य, धीरज, मेधा और अवस्थाकी वृद्धि होती है। तथा एक दिन में हजार ओंकोके धारण करनेकी सामर्थ्य उत्पन्न होती है। और दुगुनी आयु हांती है। यह सारस्वत नामक चूर्ण पहले ब्रह्मर्षीने स्वयं विकल चित्तवाले मनुष्योंके लिये निर्मित किया था ॥ ४५-४८ ॥

हिंग्वादिघृत ।

हिंगुसौवर्चलव्योषैर्द्रिपलांशैर्वृताढकम् ।
चतुर्गुणे गवां मूत्रे सिद्धमुन्माद-
नाशनम् ॥ ४९ ॥

हींग, कालानमक और त्रिकुटा यह प्रत्येक औषधि इन सबको दो २ पल, घी १ आढक और घृतमें चौ-
गुना गोमूत्र लेकर उसमें घृतको पकावे। यह हिंग्वादि
घृत—उन्मादरोग को दूर कर देता है ॥ ४९ ॥

महापैशाचिक घृत ।

जटिला पूतना केशी चारटी मर्कटी
वचा । त्रायमाणा जथा वीरा चोरकः
कटुरोहिणी ॥ ५० ॥ कायस्था शूकरी
च्छत्रा सातिच्छत्रा पलंकषा । महापुरु-
षदन्ता च वयस्था नाकुलीद्वयम् ५१ ॥
कटम्भरा वृश्चिकाली सस्थिराऽपि च
तैर्वृतम् । सिद्धं चातुर्थिकोन्मादप्रहा-
पस्मारनाशनम् ॥ ५२ ॥ महापैशा-
चकं नाम घृतमेतद्यथाऽमृतम् । मेधा-
बुद्धिरमृतिकरं बालानां चाग्निदीप-
नम् ॥ ५३ ॥

वालछड, हरड, भूतकेशी, ब्राह्मी, कौठ, वच, त्रायमाण, अरणी, क्षीरकाकोली, चोरपुष्पी, कुटकी, आमला, वाराहीकद, सौंफ, सोया, गूगल, अतावर, गिलोय, रास्ना, गंधरास्ता, मालकांगनी, विडोटी और शालिपर्णी ये प्रत्येक औषधि दो २ तोले लेवे इन सबका कल्क बनाकर उसमें २० तोले जल और ५६ तोले घृत डालकर पकावे। यह

घृत—चातुर्थिक ज्वर, उन्माद, ग्रहवाधा और अपस्मार को नष्ट करता है। यह महापैशाचिक घृत—अमृतके समान है। तथा मेधा, बुद्धि और स्मरणशक्तिको बढ़ानेवाला एवं बालकोके अंगको पुष्ट तथा उनके अग्निको बढ़ानेवाला है ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥

सारस्वतघृत ।

त्रिफला लक्ष्मणाऽनन्ता समङ्गा शा-
रिवाऽमृता । ब्राह्मी पाठा द्विवृहती
द्विस्थिरा द्विपुनर्नवा ॥ ५४ ॥ सह-
देवी सूर्यवल्ली वयस्था गिरिकर्णि
का । तोयकुम्भे पचेदेतत्पलांशं
पादशेषिते ॥ ५५ ॥ नतं कौन्ती व-
चा कुष्ठं कृष्णसर्पसैन्धवैः । निरु-
क्सवर्णवत्सायाः संसिद्धं पयसा च
गोः ॥ ५६ ॥ पुष्ययोगे घृतप्रस्थं सु-
हेमकलशे स्थितम् । पानाभ्यञ्जनतो
मेधा स्मृत्यायुःपुष्टिवर्धनम् । रक्षो-
घ्नश्च विषघ्नश्च सारस्वतमिदं घृतम् ५७ ॥
काथ्ये विचूर्णिते क्षिप्त्वा ततः षोड-
शिकं जलम् । पादशेषं प्रकर्तव्यमेष
काथविधिः स्मृतः ॥ ५८ ॥

हरड, वहेडा, आमला, लक्ष्मणाकी जड, अनन्त-
मूल, मजीठ, सारिवा, गिलोय, ब्राह्मी, पाठ, कटेरी,
बडी कटेरी, शालिपर्णी, पूष्णिपर्णी, दोनो प्रकारके पुन-
र्नवा, सहदेवी, मूरजमुखी, हड और कोयल, इन सबको
चार २ तोले लेकर एक घडे जलमें काथ बनावे। जब
पकते २ चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उतार कर
छान लेवे फिर उसको चूल्हेपर चढा देवे और उसमें
तगर, रेणुका, वच, कूट, पीपल, सरसो और सैधा-
नमक इन सब औषधियोंका कल्क, रोगरहित और
एक रगकी गौका दूध और घी डालकर पुष्यनक्षत्रमें
पकावे इसको सुवर्णके कलशमें भरकर रख देवे।
फिर इसको पान और मालिशके द्वारा व्यवहार कर-
नेसे, मेधा, स्मरणशक्ति आयु और पुष्टिकी वृद्धि होती
है। यह सारस्वत नामक घृत राक्षसवाधा और विष-
वाधाको नष्ट करता है। काथकी औषधियोंका चूर्ण
करके सोलहगुने जलमें पकावे। जब पकते २

चौथाई भाग जल शेष रहजाय तब उत्तार कर छान लेवे, यह काथकी विधि है ॥ ५४--५८ ॥

पानीयकल्याणघृत ।

दशमूली तथा रास्ना वानरी त्रिवृता बला । मूर्वा शतावरी चेति काथ्ये-
स्तु कुडवैः पृथक् ॥ ५९ ॥ कृतकाथं
पृथक् प्रस्थद्वयं मृद्वग्निना पचेत् ।
विशाला त्रिफला कौन्ती देवदार्वे-
लवालुकम् । स्थिरानतं द्वे रजन्या
शारिचे द्वे प्रियङ्गुका ॥ ६० ॥ नी-
लोत्पलैला मञ्जिष्ठा दन्ती दाडिमके-
सरम् । विडङ्गं पृष्ठपर्णी च कुष्ठचन्द-
नपद्मकैः ॥ ६१ ॥ तालीशपत्रं बृह-
ती मालत्याः कुसुमं नवम् । अष्टा-
विंशतिभिः कल्कैरेतैः कर्षसमन्वि-
तैः ॥ ६२ ॥ चतुर्गुणं जलं दत्त्वा घृ-
तप्रस्थं विपाचयेत् । अपस्मारे ज्वरे
शोषे कासे मन्दानले कृशे ॥ ६३ ॥
वातरक्ते प्रतिश्याये तृतीयकचतुर्थके ।
कटिशूले मूत्रकृच्छ्रे विसर्पोपहते-
षु च ॥ ६४ ॥ कण्डूपाण्ड्वामयोन्माद-
विषमेहगरेषु च । भूतोपहतचित्तानां
गद्गदानामचेतसाम् ॥ ६५ ॥ शस्तं
स्त्रीणाञ्च बन्ध्यानां धन्यमायुर्बलप्र-
दम् । अलक्ष्मीपापरक्षोभं सर्वग्रह-
निवारणम् ॥ ६६ ॥ कल्याणकमिदं
सर्पिः श्रेष्ठं पुंसवनेषु च ।

दशमूलकी समस्त औषधिये, रायसन, कौष्ठ, निसोत, खिरौंटी, चुरनहार और शतावर ये प्रत्येक औषधि एक एक कुडव परिमाण लेकर अलग २ दो दो प्रस्थ जलमे मंद २ अग्निसे पकावे फिर इन सब काथको छानकर एकत्र मिलाकर पकावे और इसमें इन्द्रायण, हरड, बहेडा, आमला, रेणुका, देवदारु, एलुआ, गालिपर्णी, तगर, हल्दी, दारुहल्दी, शारिवा, अनंतमूल, फूलप्रियंगू, नीलाकमल, इलायची,

मजीठ, दन्ती, अनारकं पल्लकी शाल, नागफेशर, वायविटंग, पृष्ठपर्णी, कुठ, चन्दन, पद्मारय, नालीम-
पत्र, बडी कटेरी और मालतीके नवीन फल, ये प्रत्येक औषधि दो दो तोले लेकर कन्क घनाकर उप-
रोक्त काथमें डाल देंगे तथा इममें चौगुना जल और एक प्रस्थ घी डालकर पकावे । यह घृत--अपस्मार, ज्वर, शोष, खाँसी, मज्जाभि, कुशता, वातरक्त, प्रति-
श्याय, तृतीयक ज्वर, चातुर्थिक ज्वर, कटिशूल, सूत्रकृच्छ्र, विसर्पराग, कण्डू, पाण्डु, उन्माद, विष, प्रमेहदोष, भूतोन्माद तथा अन्यान्य गद्गद एवं मन-
स्सम्बन्धीय रोगोंमें हितकारी है । बन्ध्या नियोको अन्य न्तहितकारी है । धन धान्य और आयुको घटानेवाला, तथा अलक्ष्मी, पाप, राक्षसबाधा और सर्वप्रकारकी ग्रहबाधाको दूर करता है । यह कल्याणघृत पुंसवत कर्ममें उत्तम है ॥ ५९--६६ ॥

महाकल्याणघृत ।

द्विजलं सचतुः क्षीरं तत्स्यात्क-
ल्याणकं महत् । एभ्य एव स्थिरादीश्च
जले पक्वेव विंशतिम् ॥ ६७ ॥ अथ
तस्मिन् पचेत् । सपि घृष्टिक्षीरं चतुर्गु-
णम् । वीरा द्विमाषकाकौली स्वयं-
गुप्तर्षभद्विभिः ॥ ६८ ॥ भेदया च
समैः कल्कैस्तस्मात् कल्याणकं मह-
त् । बृंहणीयं विशेषेण सन्निपातहरं
परम् ॥ ६९ ॥

इस कल्याणघृतमें दुगुना जल और चौगुना दूध डालकर पकाया जाय तो यह महाकल्याणघृत सिद्ध होता है । गालिपर्णी आदि उपरोक्त औषधियोंको पीस बीस भाग जलमे पकाकर उस काथमे घृत और एकवारकी व्याई हुई गौका चौगुना दूध, बडी शतावर, उडद, वनउडद, काकोली, कौष्ठ, ऋषभक, ऋद्धि और भेदा, इनका कल्क डालकर घृतको पकावे तो यह महाकल्याणघृत सिद्ध होता है । यह घृत--पुष्टि-
कारक और विशेष करके सन्निपातको हरनेवाला है ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥

चैतसघृत ।

श्यामा मधुरसा रास्ना देवदारु श-
तावरी । श्वदंष्ट्रा दशमूलश्च तैर्युक्तया

काथकल्कैः ॥ ७० ॥ साधितञ्चै-
नसं नाम घृतं चेतोविकारनुत् । उ-
न्मादमदमूर्च्छायां ज्वरापस्मारभेष-
जम् ॥ ७१ ॥

अनन्तमूल, चुरनहार, रायसन, देवदारु, अतावर,
गोखरु और दशमूलकी समस्त औषधियां इनको
समान भाग लेकर इनके आधेका काथ और आधेका
कल्क बनाकर उसमें घृतको सिद्ध करें तो यह चैतस-
नामक घृत सिद्ध होता है । यह चैतसनामवाला घृत
—समस्त चित्तके विकारोंको दूर करता है तथा
उन्माद, मद, मूर्च्छा, ज्वर और अपस्मारकी यह
उत्तम औषधि है ॥ ७० ॥ ७१ ॥

द्वितीयचैतसघृत ।

पञ्चमूल्या च काश्मर्यो रास्नेरण्ड-
त्रिवृद्धला । मूर्वा शतावरी चेति
कार्थेद्विपलिकैरिमैः ॥ ७२ ॥ कल्या-
णकस्य चांशेन चैतसं नाम तद्घृतम् ।
सर्वचेतोविकाराणां शमनं परमु-
च्यते ॥ ७३ ॥ कार्य्यः कषायो
द्विगुणाष्टतौर्यैः पानीयकल्याणक-
कल्कपाच्यम् ॥

पचमूलकी औषधियां, कुम्भेर, रायसन, अंडकी
जड, निसोत, खिरौटी, मूर्वा और अतावर ये प्रत्येक
औषधि आठ २ तोले लेकर मोलहगुने जलमें पकावे
जब पकते २ चौथाई भाग जल शेष रह जाय तब
इसमें पानीय कल्याणघृतकी औषधियोंका कल्क
ढालकर पकावे इसमें कल्याणघृतका अंश होनेसे यह
चैतसघृत कहा जाता है । यह घृत—सर्वप्रकारके
चित्तके विकारोंको शमन करता है ॥ ७२ ॥ ७३ ॥

निशादि घृत ।

निशायुक्त्रिफलाश्यामावचासिद्धा-
र्थहिंशुभिः । शिरीषकटभीश्वेताम-
ञ्जिष्ठाव्योषदारुभिः ॥ ७४ ॥ समैः
कल्कैर्घृतं मूत्रे सिद्धमुन्मादना-
शनम् ॥

हल्दी, दारुहल्दी, त्रिफला, अनन्तमूल, बच,
सफेद सरसो, हींग, सिरस, कटभी, फटकरी, मजीठ,
त्रिकुटा और देवदारु इन सब औषधियोंको समान
भाग लेकर इनका कल्क बनाकर इस कल्क और
गोमूत्रके साथ घृतको सिद्ध करे । यह घृत—उन्मा-
दरोगको अवश्य दूर करता है ॥ ७४ ॥

चन्दनादि तैल ।

चन्दनाम्बुनखं याव्यं यष्टी शैलेयपद्म-
कम् । मञ्जिष्ठासरलं दारु शब्द्वेलापू-
तिकेशरम् ॥ ७५ ॥ पत्रं तैलं मुरा-
मांसी कङ्कोलं वनिताम्बुदम् । हरिद्रे
शारिवे तित्ता लवणागुरुकुङ्कुमम्
॥ ७६ ॥ त्वग्नेषु नलिका चेति तैला-
न्मस्तु चतुर्गुणम् । लाक्षारससमं
सिद्धं ग्रहघ्नं परमं मतम् ॥ ७७ ॥ अप-
स्मारग्रहोन्मादकृत्यालक्ष्मीज्वराप-
हम् । आयुःपुष्टिकरञ्चैव वशीकरण-
मुत्तमम् ॥ ७८ ॥

चन्दन, नेत्रवाला, सुगन्ध, नखद्रव्य, जवाखार,
मुलैठी, भूरिछरीला, पद्माख, मजीठ, धूपसरल,
देवदारु, कचूर, इलायची, जवादिकस्तूरी, नागके-
शर, तेजपात, लोध, कपूरकचरी, वालछड, शीतल-
चीनी, फूलप्रियंगू, नागरमोथा, हल्दी, दारुहल्दी,
दोनोप्रकारकी शारिवा, कुटकी, सैधानमक, अगर,
केशर, दालचीनी, रेणुका और नलीनामक सुगन्ध
द्रव्य, इन सब औषधियोंका कल्क दो दो तोले,
तिलका तैल १ सेर, दहीका तोड ४ सेर, लाखका
रस ४ सेर, इन सबको एकत्र करके तैलको सिद्ध
करे । यह चन्दनादितैल—ग्रहवाधा तथा अपस्मार,
सर्वप्रकारके ग्रह. उन्माद, कृत्या, अलक्ष्मी और
ज्वरको नष्ट करता है। एव आयु और पुष्टिको करने-
वाला तथा उत्तम वशीकरण है ॥ ७५—७८ ॥

निवृत्ताभिषमद्यो यो हिताशी प्रयतः
शुचिः । निजागन्तुभिरुन्मादैनं क-
दाचित् स युज्यते ॥ ७९ ॥

जो मनुष्य पथ्य मोजन करनेवाला है और मांस मदिरा आदि दुष्ट पदार्थोंको त्यागकर पवित्र होगया है वह निज और आगन्तुक उन्मादरोगसे कदापि पीडित नहीं होता है ॥ ७९ ॥

विगतोन्मादके लक्षण ।

प्रसादश्चेन्द्रियार्थानां बुद्ध्यात्ममनसां तथा । धातूनां प्रकृतिस्थत्वं विगतोन्मादलक्षणम् ॥ ८० ॥

सब इंद्रियो अपना २ कार्य करनेको समर्थ हों, बुद्धि, आत्मा और मन प्रसन्न हो और सब धातुयें प्रकृतिमें स्थित हों तो उन्माद दूर हुआ जानना ॥ ८० ॥

भूतोन्मादके लक्षण ।

अमर्त्यवाग्विक्रमवीर्यचेष्टाज्ञानादिविज्ञानबलादिभिर्यः । उन्मादकालो नियतश्च यस्य भूतोत्थमुन्मादमुदाहरत्तम् ॥ ८१ ॥

जिसमें वाणी, पराक्रम, शक्ति, शारीरिक चेष्टा, तत्त्वज्ञान और जिल्पादि ज्ञान मनुष्यकासा नहीं हो तथा रोगकी वृद्धि और शान्तिका समय निश्चय नहीं हो सके उसको भूतोन्माद कहते हैं । यह भूतोन्माद आठ प्रकारका है ॥ ८१ ॥

देवग्रहग्रसितके लक्षण ।

सन्तुष्टः शुचिरथ दिव्यमाल्यगन्धो निस्तन्द्रोऽप्यवितथसंस्कृताभिभाषी । तेजस्वी स्थिरनयनो वरप्रदाता ब्रह्मण्यो भवति नरः स देवजुष्टः ॥ ८२ ॥

देहग्रहपीडितउन्मादरोगमें रोगीका चित्त अत्यन्त सन्तुष्ट हो, शुद्ध आचरण करे, सुगन्धित पुष्पोंकी मालाको शरीरमें धारण करे, शुद्ध संस्कृत भाषा बोले, तेजस्वी, स्थिर दृष्टि, अपने निकटके मनुष्योंको वरप्रदान करता है और ब्राह्मणोंमें भक्ति करता है ॥ ८२ ॥

असुरग्रहजुष्टके लक्षण ।

संस्वेदी द्विजशुरुदेवदोषवक्ता जिह्वाक्षो विगतभयो विमार्गदृष्टिः ।

सन्तुष्टो भवति न चान्नपानजातैर्दुष्टात्मा भवति च देवशत्रुजुष्टः ॥ ८३ ॥

असुरग्रहपीडित उन्मादरोगीका शरीर अत्यन्त पसीनेयुक्त हो, ब्राह्मण, गुरु और देवताओंकी निंदा करे, नेत्र उज्ज्वल और रोगी भय रहित हो, दृष्टिको इधर उधर फेरे, अन्नपानादिसे संतुष्ट न हो और सदैव पापक्रियामें लिप्त रहता है ॥ ८३ ॥

गन्धर्वग्रहग्रसितके लक्षण ।

हृष्टात्मा पुलिनवनान्तरोपसेवी स्वाचारः प्रियपरिगीतगन्धमाल्यः । नृत्यन् वै प्रहसति चारु चाल्पशब्दं गन्धर्वग्रहपरिपीडितो मनुष्यः ॥ ८४ ॥

गन्धर्वग्रहपीडित उन्मादरोगमें रोगीका चित्त सदैव प्रफुल्लित रहे, पुलिनयुक्त वन उपवनमें अधिकतर रहनेवाला, उत्तम आचरणको करनेवाला, प्रीति, सुगन्ध और पुष्पादिकोंमें अनुराग करनेवाला उत्तमप्रकारसे धीरे २ नाचे, हंसे और मंद २ मुसकरता है ॥ ८४ ॥

यक्षग्रहग्रसितके लक्षण ।

ताम्राक्षः भ्रियतनुरक्तवस्त्रधारी गम्भीरो द्रुतगतिरल्पवाक्सहिष्णुः । तेजस्वी वदति च किं ददामि कस्मै यो यक्षग्रहपरिपीडितो मनुष्यः ॥ ८५ ॥

यक्षग्रहपीडित मनुष्यके नेत्र ताँबेके समान लाल हो, बारीक, सुन्दर और लालरंगके वस्त्रोंको धारण करे, गम्भीर, बुद्धिमान्, जल्दी चलनेवाला, थोडा बोलनेवाला, सहनशील, तेजस्वी और किसको क्या दू ऐसे बोलता है ॥ ८५ ॥

पितृग्रहग्रसितके लक्षण ।

प्रेतानां स दिशति संस्तरेषु पिण्डान् शान्तात्मा जलमपि चापसव्यवस्त्रः । मांसेषुस्तिलगुडपायसाभिकामस्तद्रक्तो भवति पितृग्रहांभिजुष्टः ॥ ८६ ॥

माता, पिता अथवा अन्य किसी पितृग्रहद्वारा पीडित मनुष्य शान्तचित्त होकर और वामोत्तरीय वस्त्रको धारण करके पितरोंके कुशाकी शश्यापर

जल और पिंड देव, तथा पितरोंमें अत्यन्त भक्ति करता है, ज्ञान्ताचित्त, जल और वन अपसव्य रखे लिल, गुड और खीर खानेकी इच्छा करता है ॥८६॥

सर्पग्रहप्रसितके लक्षण ।

यस्तूर्व्यां प्रसरति सर्पवत् कदाचित्
सृक्किण्यौ विलिहति जिह्वया तथैव ।
क्रोधात्तुर्गुडमधुदुग्धपायसेप्सुर्विज्ञेयो
भवति भुजङ्गमेन जुष्टः ॥ ८७ ॥

भुजंगग्रहजुष्ट भौतिक उन्मादरोगमे रोगी पृथ्वीमें छानेके बलसे सोंपके समान चलता है, कभी रजिहा से दोनो होठोंको चाटता है, सदैव क्रोधयुक्त रहता है । तथा गुड, दूध, मधु और खीर खानेकी इच्छा करता है ॥ ८७ ॥

राक्षसग्रहप्रसितके लक्षण ।

मांसासृग्विधिसुराविकारालिप्सु-
निर्लज्जो भृशमतिनिष्टुरोऽतिशूरः ।
क्रोधात्तुर्विपुलबलो निशावचारी
शौचद्विड् भवति स राक्षसैर्गृहीतः ८८

राक्षसग्रहपीडित रोगी मांस, रुधिर और अनेक प्रकारके मदिराके विकारोंको भक्षण करनेकी इच्छा करता है, अत्यन्त निर्लज्जता और निष्टुरताके आचरण करता है, अतिगय साहसी, बलवान् और क्रोधयुक्त हो रात्रिमे भ्रमण करता है । एवं शुद्ध आचरणोक्ता द्वेषी होता है ॥ ८८ ॥

ब्रह्मराक्षसप्रसितके लक्षण ।

देवविप्रगुरुद्वेषी वेदवेदांगनिन्दकः ।
आत्मपीडाकरोऽहिंसो ब्रह्मराक्षस-
सेवितः ॥ ८९ ॥

ब्रह्मराक्षससे पीडित मनुष्य देवता, ब्राह्मण और गुरुजनोंसे द्वेष करता है, वेद और वेदके अंगोंकी निंदा करनेवाला, अपने शरीरको पीडित करनेवाला होता है ॥ ८९ ॥

पिशाचप्रसित उन्मादके लक्षण ।

उद्धस्तः कृशपुरुषो चिरप्रलापी दु-
र्गन्धो भृशमशुचिस्तथातिलोलः ।
बह्वाशो विजनवनान्तरोपसेवी व्या-
चेष्टन्भ्रमति रुदान्पिशाचजुष्टः ॥९०॥

पिशाचग्रहपीडित रोगी दोनो हाथोंको ऊपरको करता है, शरीर कृश, कर्कश और दुर्गन्धयुक्त होता है नानाप्रकारके प्रलापके बचनोको चिरकालतक कहता है, भयानक और अशुचि व्यवहार करता है तथा सब प्रकारके अन्न और पानोमे लम्पट होता है, जो भोजन मिले तो परिमाणसे अधिक खाता है, निर्जन वनमे रहता है और विरुद्ध आचरण करता हुआ रोरोकर भ्रमण करता है ॥ ९० ॥

असाध्यलक्षण ।

स्थूलाक्षो द्रुतमटनः सफेनलेही नि-
द्रालुः पतति च कम्पते च योऽति ।
यश्चाद्रिद्विरदनगादिविच्युतः सन्
सोऽसाध्यो भवति तथा त्रयोदशा-
व्दे ॥ ९१ ॥

जिस भूतोन्मादरोगीके नेत्र भयानक होजायँ, जि-
हासे ज्ञानोयुक्त दोनो हाथोंको चाटे, बहुत शीघ्र चले
और निद्रायुक्त हो, कोंपे, पथ्वीपर गिरजाय, उस
रोगीका रोग असाध्य जानना । जो रोगी पर्वत या
वृक्षादिसं गिरजाय वह अवश्य मृत्युके वश होता है
और तेरह वर्षके बाद प्रायः सब उन्माद असाध्य
होजाते है ॥ ९१ ॥

देवादिकोंके आवेश समय ।

देवग्रहाः पूर्णमास्यामसुराः सन्ध्य-
योरपि । गन्धर्वाः प्रायशोऽष्टम्यां य-
क्षाश्च प्रतिपद्यपि ॥ ९२ ॥ पितरः
कृष्णपक्षे स्युः पञ्चम्यामपि चौरगाः ।
रक्षांसि रात्रौ पेशाचाश्चतुर्दश्यां विं-
शन्ति हि ॥९३॥ दर्पणादीन्यथा छाया
शीतोष्णं प्राणिनो यथा । खमाणिं
भास्करार्चिश्च यथा देहश्च देहधूक् ।
विशन्ति न च दृश्यन्ते प्रहास्तद्वच्छ-
रीरिणाम् ॥ ९४ ॥

देवग्रह—पूर्णमाको प्रवेश करते है, असुरग्रह
सन्ध्याके समय और पूर्णमासीको भी प्रवेश करते है,
गन्धर्वग्रह प्रायः अष्टमीको प्रवेश करतेहै, यक्षग्रह प्रति-
पदाको प्रवेश करते है, पितृग्रह अमावास्याको, सर्पग्रह
पंचमीको, राक्षसग्रह रात्रिको, और पिशाचग्रह मनु-

प्योके शरीरमें चतुर्दशीको प्रवेश करते हैं। कोई यह ग्रंथा करते हैं कि, जब मनुष्योके शरीरमें ग्रह प्रवेश करते हैं तो व क्या नहीं दीखते इसका समाधान इसप्रकार है कि—जैसे कि दर्पणादिमें मनुष्य प्रवेश करते हैं अर्थात् मनुष्यका प्रतिबिम्ब पडता है, मनुष्यके शरीरमें शीत, उष्ण प्रवेश करते हैं, सूर्यकी किरणें सूर्यकांतमणिमें प्रवेश रकती हैं और जैसे आत्मा अदृश्यभावसे शरीरमें प्रवेश करता है उसीप्रकार सर्व-ग्रह मनुष्यके शरीरमें प्रवेश करते हुए नहीं दीखते हैं ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥

सर्पिष्पानादिरागन्तोर्मन्त्रादिश्चेक्ष्य-
ते विधिः ॥ ९५ ॥ पूजाबल्युपहारोष्टि-
होममन्त्राञ्जनादिभिः । जयेदागन्तु-
मुन्मादं यथाविधि शुचिर्भिषक् ॥ ९६ ॥

आगन्तुक अर्थात् भूतादिजनित उन्मादरोगको घृतादिपान, मन्त्रादिकर्म, पूजा, बलिदान, भेट, होम-मन्त्र और अंजन इत्यादि विधिसे जीते। इसमें पवित्र वैद्यके द्वारा शुद्ध रीतिके अनुसार चिकित्सा करानी चाहिए ॥ ९५ ॥ ९६ ॥

रक्तमाल्यानि गन्धश्च बीजानि मधु-
सर्पिषी । भक्ष्याश्च सर्वे सर्वेषां सा-
मान्यो विधिरुच्यते ॥ ९७ ॥

लालफूलोकी माला, सुगन्धित पदार्थ, करंजके बीज, शिरसके बीज, शहद, घी और सर्वप्रकारके भक्ष्य पदार्थ प्रयोग करने चाहिये । यह सामान्य विधि भूतोन्मादमें कही है ॥ ९७ ॥

ऋक्षजंबुकरोमाणि सल्लकी लशुनं
तथा । हिंशुर्भूत्रश्च वत्सस्थ धूपमस्य
प्रयोजयेत् । एतेन शाम्यति क्षिप्रं
बलवानपि यो ग्रहः ॥ ९८ ॥

रील और गढिलके रोम, हींग, सेईके कांटे, लशुन और बकरेका मूत्र इन सबको एकत्र मिलाकर घूनी देनेसे बलवान् ग्रहभी शमन होजाता है ॥ ९८ ॥

शिरीषबीजं लशुनं शुण्ठीं सिद्धार्थ-
कं वचाम् । मंजिष्ठां रजनीं कुष्ठं व-
त्समूत्रेण भेषयेत् ॥ ९९ ॥ वर्तिश्छा-

याविशुष्का च सा योज्या नयना-
ञ्जने ॥ १०० ॥

शिरसके बीज, लशुन, सोठ, संफद सरसों, मजीठ वच, हल्दी और कूठ इनको बकरेके मूत्रमें पीसकर वत्तीये बनावे । उन वत्तियोंको छायामें सुखाकर नेत्रोंमें आंजनेसे सब प्रकारके ग्रह दूर होते हैं ॥ ९९ ॥ ॥ १०० ॥

महाधूप ।

कार्पासास्थिमयूरपिच्छबृहतीनिर्मा-
ल्यपिण्डीतकैस्त्वङ्मांसीवृषदंशविट-
तुषवचाकेशाहिनिर्मोचनैः । नागेन्द्र-
द्विजशृङ्गहिंशुमरिचैस्तुल्यैः कृतं धूपनं
स्कन्दोन्मादपिशाचराक्षससुरावेश-
ज्वरघ्नं परम् ॥ १०१ ॥

कपासके बीज (बिनौले), मोरकी पूछ, बडीकटेरी, शिवकी निर्माल्य, मैनफल, दालचीनी, वालछड, विला-वकी सूखी विष्ठा, भुस, वच, मनुष्यके बाल, साँपकी कैचुली, हाथीदांत, गोसींग, हींग और कालीमिरच इन सबको समान भाग लेकर एकत्र पीसकर धूप बनावे। यह धूप—स्कन्दोन्माद, पिशाच, राक्षसवाधा, असुरादिका आवेश और ज्वरको नष्ट करती है १०१

कल्याणकं प्रयुञ्जीत महद्वा चैतसं
घृतम् । तैलं नारायणं वाथ महन्नारा-
यणं तथा ॥ १०२ ॥

इसमें कल्याणघृत अथवा महाकल्याणघृत वा चैतसघृत या नारायण तेल अथवा महानारायण तेल प्रयोग करे ॥ १०२ ॥

न च रौद्रं प्रयुञ्जीत प्रयोगं देवता-
ग्रहे । ऋते पिशाचादन्येषु प्रतिकूलं
न वा चरेत् ॥ १०३ ॥

देवग्रहसित मनुष्यके कदापि रौद्रकर्म नहीं प्रयोग करे। और पिशाचादि ग्रहग्रसितको छोडकर मनुष्योंको कदापि उनके प्रतिकूल विधि न करे १०३

वैद्यास्तु वै निहन्युस्ते ध्रुवं क्रुद्धा म-
हौजसः । हिताहितविधानश्च नि-
त्यमेव समाचरेत् ॥ १०४ ॥

क्योंकि विरुद्धकर्म करनेसे वे कुट्ट होकर वैद्यको नष्ट कर देते हैं अतएव इनमें हिताहित विधि अच्छे प्रकारसे विचारकर प्रयोग करने चाहिए ॥ १०४ ॥

इति श्रीचिंगसेने भाषाटीकायां उन्मादा-
धिकार संपूर्ण ।

अथापस्माररोगाधिकार ।

अपस्मारका निदान ।

चिन्ताशोकादिभिर्दोषाः क्रुद्धा ह-
त्स्रोतसां स्थिताः । कृत्वा स्मृतेरप-
ध्वंसमपस्मारं प्रकुर्वते ॥ १ ॥

चिन्ता, शोकादि कारणोंसे प्रकुपित हुए दोष हृदय और स्रोतोंमें स्थित होकर स्मरणशक्तिको नष्ट करके अपस्माररोगको उत्पन्न करते हैं ॥ १ ॥

वातापित्तात्कफात्सर्वदोषैः स स्या-
च्चतुर्विधः । तमसो दर्शनं ध्या-
नं हृत्कम्पो नेत्रवैकृतम् । भ्रमो हृद-
यशून्यत्वं भाविनस्तस्य लक्षणम् ॥ २ ॥

वात, पित्त और कफ तथा त्रिदोषज ऐसे अपस्मार रोग चार प्रकारके हैं। अंधकारदर्शन, एकओर ध्यान लगाना, हृदयका कांपना, नेत्रोंका विकृत होना, भ्रम, हृदयमें शून्यता इत्यादि अपस्मारके सामान्य लक्षण जानने ॥ २ ॥

तमःप्रवेशः संरम्भो दोषोद्रेकहत-
स्मृतिः । अपस्मार इति ज्ञेयो गदो
घोरश्चतुर्विधः ॥ ३ ॥

अंधकारमें प्रवेश होनेके समान ज्ञानका नष्ट हो-
जाना, नेत्रोंका टेढा तिरछा होजाना, हाथ, पैरोंको
इधर उधर पटकना, इसमें दुष्ट दंशोंके द्वारा ज्ञान
और स्मरणशक्तिका नाश होता है। इसकारण इसको
अपस्मार रोग कहते हैं। यह भयंकर अपस्मार रोग
वात, पित्त, कफ और सात्त्विकात्मिक ऐसे चार प्रका-
रका है ॥ ३ ॥

अपस्मारका पूर्वरूप ।

हृत्कम्पःशून्यता स्वेदो ध्यानं मूर्च्छा-
प्रमूढता । निद्रानाशश्च तस्मिंश्च
भविष्यति भवन्त्यथ ॥ ४ ॥

हृदयकम्प, अंगोंमें शून्यता, पसीनिका अत्यन्त आना, ध्यान लगजाना, मूर्च्छा, निद्राका नाश, तथा मन और इंद्रियोंमें मोह हो ये सब लक्षण अपस्मारके पूर्वमें होते हैं ॥ ४ ॥

वातजअपस्मारके लक्षण ।

कम्पते प्रदशेदन्तान् फेनोद्दामी श्व-
सित्यपि । परुषारुणकृष्णानि पश्ये-
द्रूपाणि चानिलात् ॥ ५ ॥

वातजअपस्मारमें रोगीको अरुण या कृष्णवर्णका स्वरूप देखता है अर्थात् उसको ऐसा मालूम होता है कि मेरेपास कोई लाल या काले रंगका मनुष्य दौड़ा चला आता है तथा कांपता है, दांतोंको चवाता है, मुखसे झाग डालता है और खर २ श्वास लेता है ॥ ५ ॥

पित्तज अपस्मारके लक्षण ।

पीतफेनाङ्गवक्राक्षः पीतासृग्रूपदर्श-
नः । सतृष्णोष्णानलव्यासलोकदर्शी-
च पित्तिकः ॥ ६ ॥

पित्तज अपस्मारवाला रोगी पीन या लोहित रंग के स्वरूपको देखकर मूर्च्छित होजाता है अर्थात् उसको यह मालूम होता है कि मेरेपास कोई पीले रंगका मनुष्य दौड़ा आता है। उसका शरीर, मुख, मुखके झाग और नेत्र पीले रंगके होते हैं। उसको अत्यन्त तृषा होती है और सम्पूर्ण जगत् अग्नि द्वारा व्याप्त और संतप्त देख पड़ता है ॥ ६ ॥

कफजअपस्मारके लक्षण ।

शुक्लफेनाङ्गवक्राक्षः शीतपुष्टाङ्गो
गुरुः । पश्येच्छुक्लानि रूपाणि श्ल-
ष्मिको मुच्यते चिरात् ॥ ७ ॥

कफकी मृगीवाला रोगी सफेद रंगके स्वरूपको देखकर मूर्च्छित होजाता है अर्थात् उसको सफेद रंग मनुष्य दौड़ा आता दिखाई देता है। रोगीका मुख, मुखके झाग, नेत्र और सब शरीर सफेद होजाता है

देहमें गीतलता, रोमांचोका होना और शरीरमें भारी-पन होना, ये कफज अपस्मारके लक्षण होंत है कफज अपस्मारका रोगी अन्यान्य अपस्मारोकी अपेक्षा देरमें चैतन्य होता है ॥ ७ ॥

त्रिदोषअस्मारके लक्षण ।

सर्वैरेभिः समस्तैश्च लिङ्गैश्चैयस्त्रिदो-
षजः । अपस्मारः स चासाध्यो यः
क्षीणस्यानवश्च यः ॥ ८ ॥

जिस अपस्माररोगमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हों उसको सान्निपातिक अपस्मार कहते हैं । क्षीण मनुष्योंके उत्पन्न हुआ सान्निपातिक अपस्मार असाध्य है । यह रोग बहुत दिनोंका होजाने पर भी असाध्य होजाता है ॥ ८ ॥

असाध्यलक्षण ।

विस्फुरन्तं सुबहुशः क्षीणं प्रचलित
भ्रुवम् । नेत्राभ्याश्च विकुर्वाणमपस्मा-
रो विनाशयेत् ॥ ९ ॥

जो अत्यन्त कामे, दोनो भौको चलोव, नेत्रोंको टेढा करे और जिसका शरीर अत्यन्त कृश होगया हो ऐमा अपस्माररोगी नहीं बचता है ॥ ९ ॥

अपस्मारके वेगका समय ।

पक्षाहाद्वादशाहाद्वा मासाद्वा कु-
पिता मलाः । अपस्माराय कुर्वन्ति
वेगं किञ्चिदधान्तरम् ॥ १० ॥ देवे
वर्षत्यपि यथा भूमौ बीजानि का-
निचित । शरदि प्रतिरोहन्ति तथा
व्याधिसमुच्छ्रयः ॥ ११ ॥

१५ दिन, १२ दिन अथवा एक महीनेमें वातादि दोष कुपित होकर अपस्मारके रोगको करते हैं । इन में पित्तका १५ दिनमें, वातका वेग १२ दिनमें और कफका वेग १ महीनेमें होता है । और कभी २ उपरोक्त अवधिको छोड़कर अधिक कम दिनमें भी होता है । उन्में नष्टान्त फटते हैं कि, बहुत प्रकारके बीज पृथ्वीपर वर्षा होनेपर भी उत्पन्न नहीं होते हैं और फिर शरद ऋतुमें जमेते हैं । उसीप्रकार रोगकी अवधि भी जाननी चाहिए ॥ १० ॥ ११ ॥

चिकित्सा ।

पूर्वं युञ्ज्यादपस्मारे छर्दनादीनि बु-
द्धिमान् । वातिकं वस्तिभिः प्रायः पै-
त्तिकन्तु विरेचनैः । कफजं वमनैर्धी-
मानपस्मारमुपाचरेत् ॥ १२ ॥

अपस्मार रोगमें पहले बुद्धिमान् वैद्य वमनादि क्रिया करे । प्रथम वातज अपस्मारमें वस्तिकर्म पित्तज अपस्माररोगमें विरेचन और कफज अपस्मार रोगमें वमन करावे ॥ १२ ॥

ततस्तीक्ष्णं प्रयुञ्जीत भिषक्सम्य-
ग्विशोधनम् । सर्वतः शुद्धदेहस्य
स्यादुन्मादहरी क्रिया ॥ १३ ॥

जब इसप्रकार अपस्मार रोगीके देहको अच्छेप्रकारसे शुद्ध कर लेवे तो फिर तीक्ष्ण कर्म प्रयोग करे । अपस्मार रोगीको सर्वप्रकारसे शुद्ध करके पश्चात् उन्मादनाशक क्रिया करे ॥ १३ ॥

उपयोगे ग्रहोक्तानां योगानां चाथ
शेषतः । शिशुकट्वङ्गकिणिहीनिम्ब-
त्वग्रससाधितम् ॥ चतुर्गुणे गवां मूत्रे
तेलमभ्यंजने हितम् ॥ १४ ॥

भूतादि ग्रहोंमें जो प्रयोग कहे हैवे इस अपस्मार-रोगमें भी प्रयोग करने चाहिए । सर्हिजनेकी छाल, श्योनाक, फटभी और नीमकी छाल, इनके काठेमें चौगुना गौमूत्र डालकर तेलको पकावे । इस तेलकी मालिश करनेसे अपस्मार रोग शमन होता है ॥ १४ ॥

गोधानकुलनागानां वृषभर्क्षगवाम-
पि । पित्तेषु तैलं सिद्धञ्च नस्याभ्य-
ङ्गेषु पूजितम् ॥ १५ ॥

गोय, नौला, साँप, बैल, रीछ और गौ इन सबके पित्तोंको लेकर तेलमें पकाकर उसको नस्थ और अभ्यंजन कर्ममें प्रयोग करना चाहिए ॥ १५ ॥

तीक्ष्णैरुभयतो भागैः शिरश्चापि वि-
रेचयेत् । पूजां रुद्रस्य कुर्वीत तद्ग-
णानां विशेषतः ॥ १६ ॥

तीक्ष्ण औषधियोंके द्वारा ऊर्ध्व, अधोभागको शुद्ध करे तथा शिरको विरेचन देवे और महादेवकी पूजा करे तथा विशेषकरके उनके गणोंकी पूजा करे ॥ १६ ॥

**तैलेन लशुनं सेव्यं पयसा च शता-
वरी । ब्राह्मीरसश्च मधुना सर्वाप-
स्मारभेषजम् ॥ १७ ॥**

लशुनको तैलके साथ, जनावरीको दूधके साथ और ब्राह्मीके रसमें गहद मिलाकर सेवन करनेसे सब प्रकारका अपस्मार रोग दूर होता है ॥ १७ ॥

**उद्धन्थननरग्रीवापाशं दग्ध्वा कृता
मषी । शीतांबुना समं पीता हन्त्य-
पस्मारमुद्धतम् ॥ १८ ॥**

जिस रस्तीको गलेमें डालकर मनुष्यको फांसी दी जाती है उस रस्तीको जलाकर उसकी स्याई बनाकर शीतल जलके साथ पीनेसे अपस्माररोग दूर होता है ॥ १८ ॥

**विदह्य निर्द्रवां कृत्वा छागजामन्त्र-
नालिकाम् । तामम्लसाधितां खादे-
दपस्मारमुदस्यति ॥ १९ ॥**

बकरीकी आंठों और नलीको जलाकर उसको खटाईमें सिद्ध करके खाय तो अपस्मार रोग दूर होता है ॥ १९ ॥

**निर्गुण्डीभववन्दाकपाननस्योपयोग-
तः । उपैति सहसा नाशमपस्मारो
महागदः ॥ २० ॥**

निर्गुण्डीके वन्देको लेकर जलके साथ पीसकर पीनेसे या नास लेनेसे शीघ्र ही अपस्मार रोग शान्त होता है ॥ २० ॥

**मनोह्वाताक्षर्यजश्चैव शकृत्पारावतस्य
च । अञ्जनाद्धन्त्यपस्मारमुन्मादश्च
विशेषतः ॥ २१ ॥**

मैनशिल, रसौत और कवूतरकी बटि इनको एकत्र पीसकर नेत्रोंमें आंजनेसे अपस्मार रोग और विशेष करके उन्माद रोग दूर होता है ॥ २१ ॥

**श्वशृगालविडालानां कपीनाश्च गवा-
मपि । पित्तानि नस्यतो दद्यादपस्मृ-
तिनिवृत्तये ॥ २२ ॥**

कुत्ता, गीदड, विलाव, बन्दर और गौ इनके पित्तका नास लेनेसे अपस्माररोग शान्त होता है ॥ २२ ॥

**यष्टीहिंशुवचादारुशिरीषलशुनाम-
थैः । साजसूत्रैरपस्मारे सोन्मादे ना-
वनाञ्जने ॥ २३ ॥**

मुलेठी, हींग, वच, देवदारु, सिरसके बीज, लशुन और कूट इनको बकरीके मूत्रमें पीसकर नेत्रोंमें आंजनेसे अपस्मार रोग और उन्मादरोग दूर होता है ॥ २३ ॥

**कपित्थाञ्छारदान्मुद्गान् मुस्तोशी-
रयवांस्तथा । सव्योषान् वत्समूत्रेण
पिष्ट्वा वर्तिं प्रकल्पयेत् ॥ २४ ॥ अप-
स्मारे तथोन्मादे सर्पदष्टे गरादिते ।
विषपीते जलमृते चैताः स्युरमृतो-
पमाः ॥ २५ ॥**

कैथ, शारदीय धान्य, मूँग, नागरमोथा, खस, जौ और त्रिकुटा इन सबको एकत्र बकरीके मूत्रमें पीस कर बत्ती बनावे । यह बत्ती—अपस्मार, उन्माद, सर्पदंश, विषसे पीडित, विषपान किये हुए और जल में डूबे हुए इन सब रोगियोंको हितकारी है ॥ २४ ॥ ॥ २५ ॥

जलमृतके लक्षण ।

**बद्धपायुं विपर्याक्षं शीतपादकरोदर-
म् । विद्याज्जलमृतं जन्तुं शूनपात्रा-
भिमेहनम् ॥ २६ ॥**

जिसका मूल द्वार (अपानवायु) रुक जाय, नेत्र विकृत हो जायँ, हाथ पांव और उदर ये शीतल हो जायँ तथा पाव नाभि और लिंग पर सूजन हो इस को जलमृत जानना ॥ २६ ॥

**पुण्योद्धृतं शुनः पित्तमपस्मारघ्नमञ्ज-
नम् । तदेव सर्पिषा युक्तं धूपनं परमं
स्मृतम् ॥ २७ ॥**

पुण्यनक्षत्रमें कुत्तेका पित्त लेकर नेत्रोंमें आंजनेसे अपस्मार रोग दूर होता है अथवा कुत्तेके पित्तको घीमें मिलाकर धूनी देनेसे अपस्माररोग दूर होता है ॥ २७ ॥

**याभिः क्रियाभिः सिद्धाभिर्हृदयं सं-
प्रबुद्धयते । स्रोतांसि चास्य शुद्धय-
न्ति स्मृतिं संज्ञाश्च विन्दन्ति ॥ २८ ॥**

इन उपरोक्त क्रियाओंके करनेसे हृदयमें ज्ञान उत्पन्न होता है, शरीरके स्रोत शुद्ध होते हैं, स्मरण-शक्ति और चेतना प्रकट होती है ॥ २८ ॥

नकुलोत्कमार्जारगृध्रकीटाहिका-
कजैः । तुण्डैः पक्षैः पुरीषैश्च धूपनं का-
रयोद्भिषक् ॥ २९ ॥

नौला, उल्लू, विलाव, गीध, कीटा, सर्प और कौआ इनकी चोच, पख और विष्ठाकी अपस्मार रोगीको धूनी देवे ॥ २९ ॥

गामूत्रसिद्धार्थकशिमुपणैरुद्धर्तनं तै-
रथवा प्रलेपः । पित्तञ्च गोमत्स्यकृ-
तोऽत्र धूमो नस्यञ्च तीक्ष्णैरवबोधना-
र्थम् ॥ ३० ॥

सफेद सरसो और साहिजनेके पत्ते इनको एकत्र गोमूत्रमें पीसकर इसका उबटन या प्रलेप करे या गौ और मछलीके पित्तकी धूनी देवे तथा चैतन्य करनेके लिये तीक्ष्ण नस्य देवे ॥ ३० ॥

अपेतराक्षसी कुष्ठं पूतनाकेशचौ-
रकैः । उत्सादनं मूत्रपिष्टमूत्रैरेवावसे-
चयेत् ॥ ३१ ॥

तुलसी, कूट, हरड, बालछड और चोरकसुगन्ध द्रव्य इन सबको गोमूत्रमें पीसकर गोमूत्रके साथ मिलाकर अपस्मार रोगीके शरीरपर सेचन करे ३१ ॥

मूलं बहिशिखाया गवाक्ष्या लीढं न-
रेण मासेन । निःशेषयत्यपस्मृतिमि-
ति सिद्धं नात्र सन्देहः ॥ ३२ ॥

मोरकी शिखाकी जडको गोरखककडीके रसमें मिला कर एक महीने तक सेवन करनेसे अपस्मार रोग दूर होता है इसमें सन्देह नहीं ॥ ३२ ॥

यः खादेत् क्षीरभक्ताशी माक्षिकेन
वचारजः । अपस्मारं महाघोरं सुचि-
रोत्थं जयेद् ध्रुवम् ॥ ३३ ॥

जो मनुष्य नियमसे वचके चूर्णको शहदमें मिला कर खाय और दूधके साथ भोजन करे तो महाघोर और बहुत दिनोंका उत्पन्न हुआ अपस्मार रोग अवश्य दूर होता है ॥ ३३ ॥

उत्तरदिग्गतमुत्तकमूलं बुद्ध्या समु-
द्धृतं पेण्यम् । पीतं पयसा हन्यादप-
स्मृतिं गोसवर्णवत्सायाः ॥ ३४ ॥

उत्तरदिशामें उत्पन्न हुए नागरमांथेकी जडका उखाडकर उसका चूर्ण करके एक रंगके बछेडेवाली गाँके दूधके साथ सेवन करनेमें अपस्मार रोग दूर होता है ॥ ३४ ॥

कूष्माण्डकफलोत्थेन रसेन परिपेपि-
तम् । अपस्मारविनाशाय यष्ट्याहं
स पिबेत्त्र्यहम् ॥ ३५ ॥

पेठेके रसमें मुँहठीका पीसकर तीन दिन तक पीनेसे अपस्माररोग दूर होता है ॥ ३५ ॥

काकोत्तरगतं मूलं योगानीतं विधु-
पितम् ॥ ३६ ॥

कौवाठोडीकी जडको पीसकर अपस्मार रोगीको धूनी देवे ॥ ३६ ॥

उग्रमक्षमितं चूर्णं कृतञ्च मधुसर्पिषा ।
भक्षयेत् क्षीरभक्ताशी त्रिदिनेऽपस्मृ-
तिक्षयः ॥ ३७ ॥

एक तोला प्रमाण वचके चूर्णको शहद या घीमें मिलाकर सेवन करनेसे तीन दिनमें अपस्मार रोग दूर होता है ॥ ३७ ॥

कृकलासस्य मत्स्यस्य ग्रीष्मे च ज-
ठरे क्षिपत् । विपाटिते च मरिचं
शोषे स्थाप्यं प्रयत्नतः । चूर्णयित्वा
प्रथमयेदपस्मारनिवृत्तये ॥ ३८ ॥

कालीमिरचको केकडे या मछलीके पेटमें भरकर ग्रीष्म ऋतुमें गाड देवा फिर उसको उखाडकर उसमेंसे मिरचको निकालकर धूपमें सुखाकर चूर्ण करके अपस्मारको दूर करनेके लिये धूनी देवे ॥ ३८ ॥

मदनस्य च बीजानि चूर्णयित्वा त-
थैव च । पिण्डीतकस्य चाल्पस्य क-
र्षकं पेषयेज्जले ॥ ततोऽस्य पानमा-
त्रेण नश्यतेऽपस्मृतिर्गदः ॥ ३९ ॥

मैनफलके त्रीजोंका चूर्ण तथा छोटे मैनफलका चूर्ण करके एक तोला प्रमाण जलमें पीसकर पानिसे अपस्माररोग दूर होता है ॥ ३९ ॥

त्रिपाठिना विक्रमेण ह्ययमुक्तो न संशयः । दुश्चिकित्स्यो ह्यपस्मारश्चिरकाली महागदः ॥ ४० ॥ तस्माद्रसायनैरेनं प्रायशः समुपाचरेत् ॥ ४१ ॥

त्रिपाठी विक्रमने यह निश्चय किया है कि—अपस्मार दुश्चिकित्स्य, बहुत दिनोतक रहनेवाला महारोग है, इसकारण विशेष कर इसमें रसायनविधिसे चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ४० ॥ ४१ ॥

हृत्कम्पोऽक्षिरुजा यस्य स्वेदो हस्तादिशीतता । दशमूलीजलं तस्य कल्याणाज्यञ्च योजयेत् ॥ ४२ ॥

जिसके हृदयमें कम्प, नेत्रोंमें पीडा, पसीनका आना और हाथ पांव शीतल हो उसको दशमूलका काथ और कल्याणघृत सेवन करावे ॥ ४२ ॥

पञ्चकोलं समरिचं त्रिफलं विडसैन्धवम् । कृष्णाविडङ्गपूतीकायवानीधान्यजीरकम् ॥ ४३ ॥ पतितमुष्णांबुना चूर्णं वातश्लेष्मानयापहम् । अपस्मारे तथोन्मादे अर्शसां ग्रहणीगदे । एतत्कल्याणकं चूर्णं नष्टस्यात्रैश्च दीपनम् ॥ ४४ ॥

पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, सोंठ, मिरच, त्रिफला, विडनमक, सैधानमक, पीपल, वायविडङ्ग, दुर्गन्धकरञ्ज, अजवायन, धनियों और जीरा इन सबका एकत्र चूर्ण करके गरम जलके साथ पान करनेसे वात, कफके रोग दूर होते हैं । यह चूर्ण—अपस्मार, उन्माद, बवासीर, संग्रहणी और मन्दाग्निको दूर करता है ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

पलंकषा तैल ।

पलंकषा वचा यष्टी वृश्चिकाली च सर्षपा । जटिलापूतनाकेशीनाकुलीहिंसुजीरकैः ॥ ४५ ॥ लशुनातिविषातिक्ताकुष्ठैर्विडभिश्च पक्षिणाम् । मांसाशिनां यथालाभं वत्समूत्रे चतु-

गुणे ॥ ४६ ॥ सिद्धमभ्यञ्जने तैलमपस्मारविनाशनम् ॥ ४७ ॥

गूगल, वच, मुँलठी, विछाटी, सरसो, वालछड, हरड, भूतकेशी, नकुलकन्द, (नाई), हींग, जीरा, लशुन, अतीस, कुटकी, कूठ और पक्षियोंकी बीट तथा मांस खानेवाले यथालाभ मांस डालकर सबको चौगुने बकरीके मूत्रमें मिलाकर तिलके तेलको सिद्ध करे । इस तेलकी मालिश करनेसे अपस्मार रोग दूर होता है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

त्रिफलतैल ।

त्रिफलाव्योषकुष्ठाब्दयवक्षारफणिज्जकैः। सामिः कल्कीकृतेर्द्रव्यैर्गजमूत्रे चतुर्गुणे ॥ ४८ ॥ साधितं नावनं तैलमपस्मारं विनाशयेत् ॥ ४९ ॥

त्रिफला, त्रिकुटा, कूट, नागरमोथा, जवाखार और मरुआ इन सब औषधियोंका कल्क बनाकर हाथीके चौगुने मूत्रमें तेलको पकावे । इस तेलको नस्यादि कर्ममें प्रयोग करनेसे अपस्माररोग दूर होता है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥

ब्राह्मीघृत ।

ब्राह्मीरसवचाकुष्ठं शंखपुष्पीभिरेव च । पुराणं पक्वमुन्मादग्रहापस्मारहृद्घृतम् ॥ ५० ॥

ब्राह्मीका रस, वच, कूट और शंखाहुली इनके कल्कके द्वारा घृतको सिद्ध करे । यह घृत—पुराणे, पक्व और अत्यन्त भयंकर ग्रह एवं अपस्मारको दूर करता है ॥ ५० ॥

कूष्माण्डकघृत ।

कूष्माण्डकरसे सर्पिरष्टादशगुणे पचेत् । यष्ट्याह्वकल्कं तत्पानमपस्मारविनाशनम् ॥ ५१ ॥

पेठेके रसमें मुँलठीके कल्कके द्वारा घृतको पकावे यह घृत—अपस्माररोगको दूर करता है ॥ ५१ ॥

स्वल्पपञ्चगव्य घृत ।

गोशकृद्रसदध्यम्लक्षीरमूत्रैः समैर्घृतम् । सिद्धं चतुर्थकोन्मादमपस्मारविनाशनम् ॥ ५२ ॥

गौक गोधरका रस, दही, तक्र, दूध और गोमूत्र इनके द्वारा घृतको सिद्ध करे । यह घृत—चातुर्थिक ज्वर और अपस्मारको दूर करता है ॥ ५२ ॥

महापञ्चगव्य घृत ।

द्वे पञ्चमूल्यौ त्रिफलारजन्यौ कुटज-
त्वचम् । सप्तपर्णमपामार्गं नीलिनी
कटुरोहिणी ॥ ५३ ॥ शम्याकफलमू-
लञ्च पौष्करं सदुरालभम् । द्विपलानि
जलद्रोणे पक्ता पादावशेषिते ॥ ५४ ॥
भाङ्गी पाठा त्रिकटुकं त्रिवृता निचु-
लानि च । श्रेयसीमाठकीं मूर्वां दन्तीं
भृनिम्बचित्रको ॥ ५५ ॥ द्वे शारिवे
रोहिषञ्च भूतिकं मदयन्तिकाम् ।
क्षिपेत् पिष्ट्वाक्षमात्राणि तैः प्रस्थं स-
र्पिषः पचेत् ॥ ५६ ॥ गोशकृद्रसदध्य-
म्लक्षीरमूत्रैश्च तत्समैः । पञ्चगव्यामि-
दं ख्यातं महत्तदमृतोपमम् ॥ ५७ ॥
अपस्मारे तथोन्मादे श्वयथावदरे-
ष्वपि । गुल्मार्शःपाण्डुरोगेषु काम-
लायां हलीमके । अलक्ष्मीग्रहरक्षोर्ध्न
चातुर्थिकनिवारणम् ॥ ५८ ॥
जङ्गमानां वयस्थानां चर्मरोमनखा-
दिकम् । क्षीरमूत्रपुरीषाणि जीर्णाहा-
रेषु संहरेत् ॥ ५९ ॥

दशमूल, त्रिफला, हल्दी, दारुहल्दी, कुडेकी छाल, सतवन, चिरचिटा, नील, कुटकी, अमलतासका गूदा, अमलतासकी जड़, पोहकरमूल और धमासा ये प्रत्येक औषधि दो २ पल लेकर एक द्रोण जलमें पकावे जब पक्ते २ चौथाई भाग जल जेप रहजाय तब उतारकर छान लेवे । फिर इसमें भारगी, पाठ, त्रिकुटा, निसांत, जलवेत, हरद, अडहर, मूर्वा, दंती, चिरायता, चीता, दोनों प्रकारकी सारिवा, रोहिप तूण, भूतूण और मोतियाके फूल ये प्रत्येक औषधि दो २ तोला पीसकर डाल देवे और एक प्रस्थ उत्तम गौका घी तथा गोधरका रस, दही, तक्र, दूध और गोमूत्र ये सब समान भाग डालकर घृतको पकावे

तो यह महत् पंचगव्य नामक घृत सिद्ध होता है । यह महापंचगव्यघृत—अपस्मार, उन्माद, सूजन, अर्बुद, गुल्म, ववासीर, पाण्डुरोग, कामला, हली-
मक, अलक्ष्मी, ग्रहवाधा, राक्षसवाधा और चातु-
र्थिक ज्वरको दूर करता है, जंगमजीवोके पूर्ण अव-
स्था होनेपर चर्म, रोम, नखादिक, दूध, मूत्र और
विष्टा आदि ये सब उनके भोजनके जीर्ण होमेपर
ग्रहण करने चाहिये ॥ ५३—५९ ॥

महाचैतसघृत ।

शणखिवृत्तैरण्डो दशमूली शताव-
री । रास्ना मागधिका शिशुकाथे
द्वे द्वे पले पृथक् ॥ ६० ॥ विदारी मधुकं
मेदे द्वे काकोल्यौ तथा सिता ।
खजूरी भीरुमृद्धीका युजातं गोक्षुरं
तथा ॥ ६१ ॥ चैतसस्य घृतस्थांशैः प-
क्तव्यं सर्पिरुत्तमम् । महाचैतससंज्ञन्तु
ज्वरापस्मारनाशनम् ॥ ६२ ॥ गदोन्मा-
दप्रतिश्यायतृतीयकचतुर्थकान् । पा-
प्मालक्ष्म्यौ जयेदेतत्सर्वग्रहनिवार-
णम् ॥ ६३ ॥ श्वासकासहरञ्चैव शु-
क्रार्त्तवविशोधनम् ॥ ६४ ॥

सन, निसोत, अंडकी जड़, दशमूल, शतावर, रायसन, पीपल और सहिजना इन प्रत्येकका काथ पृथक् २ दो २ पल, विदारीकन्द, मुलेठी, मेदा, महा-
मेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, मिश्री, खजूर, शतावर, दाख, लुहारा और गोखरू इनका कल्क तथा चैतसघृतम कहीं हुई समस्त औषधियोंका कल्क डालकर इस घृतको उत्तम विधिसे पकावे । यह महाचैतसघृत ज्वर और अपस्मारको दूर करता है; तथा उन्मादरोग, प्रतिश्याय, तृतीयक ज्वर चातु-
र्थिक ज्वर, पाप, अलक्ष्मी और मम्पूर्ण ग्रहोंको दूर करता है एवम् श्वास और खांसीको दूर करता है तथा शुक्र और आर्त्तवको शुद्ध करता है ॥ ६० ॥ ६४ ॥

काथकी विधि ।

द्रव्यआपोत्थिते काथे दत्त्वा षोडशिकं
जलम् । पादशेषञ्च कर्त्तव्यमेष काथ-
विधिः स्मृतः ॥ ६५ ॥

कुटे हुए द्रव्योंमें सोलह भाग जल डालकर काथ करे, जब पकते पकते चौथाई भाग जल शेष रह जाय तब उसको इतारकर छानलेवे । यह काथविधि जाननी ॥ ६५ ॥

मधूकघृत ।

मधूकद्विपले कल्के द्रोणे चामलकी-
रसे । तस्मिन् सिद्धं घृतप्रस्थं पित्ताप-
स्मारभेषजम् ॥ ६६ ॥

मुलैठीका कल्क आठ तोले और उत्तम गौका घी एक प्रस्थ इनको एक द्रोण आमलोके रसमें डालकर पकावे । यह मधूक घृत—पित्तज अपस्माररोगको दूर करता है ॥ ६६ ॥

काश्मरघृत ।

काशक्षरिक्षुरसयोः काश्मर्यष्टगुणे घृ-
ते । कार्षिकैर्जीवनीयैश्च सर्पिःप्रस्थं
विपाचयेत् । वातापित्तोद्भवं क्षिप्रम-
पस्मारं नियच्छति ॥ ६७ ॥

कांसका काथ, दूध, ईखका रस और कुम्भेरका रस ये ८ भाग, ज्विनचिगणकी औपधियोका कल्क एक एक तोला और उत्तम गौका घी १ प्रस्थ सबको मिलाकर पकावे । यह घृत—वातापित्तजनित अपस्मारको दूर करता है ॥ ६७ ॥

वचादि घृत ।

वचाशम्याककरैण्डवयस्थाईगुचोर-
कैः । सिद्धं पलंकषायुक्तैर्वातश्लेष्मा-
त्मके घृतम् ॥ ६८ ॥

वच, अमलतास, कैरण्ड (एक प्रकारकी करंज), आमले, हींग, अन्धाहलि और गूगल इनके कल्कके द्वारा घृतको सिद्ध करे । इस घृतके सेवन करनेसे वातकफजन्य अपस्मार दूर होता है ॥ ६८ ॥

कटभी तैल ।

कटभीनिम्बकटुङ्गमधुशिशुत्वचां रसे ।
सिद्धं मूत्रसमं तैलमभ्यङ्गार्थं प्रश-
स्यते ॥ ६९ ॥

कटभी, नीम, सोनापाठा मुलेठी और सहिज-
नेकी छाल इनके रसमें गोमूत्र और तिलका तेल डाल-
कर तेलको सिद्ध करे । यह तेल अपस्मार रोगवाले
मनुष्योंके लिये अभ्यंगम उत्तम है ॥ ६९ ॥

शिशुतैल ।

शिशुकुष्ठशिलाऽजाजीलशुनव्योष-
हिङ्गुभिः । वत्समूत्रे शृतं तैलं नावनं
स्यादपस्मृतौ ॥ ७० ॥

सहिजना, कूठ, मैनाशिल, जोरा, त्रिकुटा, लसुन
और हींग इनके कल्कके द्वारा गोमूत्रमें तेलको सिद्ध
करे । इस तेलको नस्यादिक कर्ममें प्रयोग करनेसे
अपस्मार रोग दूर होता है ॥ ७० ॥

जीवनीययमक ।

तैलप्रस्थं घृतप्रस्थं जीवनीयैः पलो-
न्मितैः । क्षीरद्रोणे पचेत्सिद्धमपस्मा-
रविनाशनम् ॥ ७१ ॥

जीवनीयगणकी समस्त औपधियोका कल्क चार
चार तोले, गौका दूध एकद्रोण, घी एक प्रस्थ और
तेल एक प्रस्थ लेवे । इन सबको एकत्र करके इस
यमकको सिद्ध करे । इसको सेवन करनेसे अपस्मार
रोग दूर होता है ॥ ७१ ॥

इति श्रीवंगसेने भापाटीकायां अपस्मार-
रोगाधिकार सम्पूर्ण ।

अथ वातव्याधिनिदान ।

रूक्षशीतालपलध्वन्नव्यवायातिप्र-
जागरैः । लघनप्लवनात्यध्वव्यायामा-
दिप्रचेष्टितैः ॥ १ ॥ विषमादुपचारा-
द्वा दोषास्तुक्स्त्रावणादति । धातूनां
संक्षयच्चिन्ताशोकरोगाऽतिकर्षणा-
त् ॥ २ ॥ वेगसन्धारणादामादभिघा-
तादभोजनात् । मर्मबाधाद्गोष्ठा-
श्वशीघ्रयानादिसेवनात् ॥ ३ ॥ देहे

स्रोतांसि रिक्तानि पूरयित्वाऽनिलो
बली । करोति विविधान् व्याधीन्
सर्वाङ्गकाङ्गसंश्रयान् ॥ ४ ॥

रूखा, जीतिल, थोडा और हलका पेसे अन्नका भोजन करनेसे, अत्यन्त मैथुन करनेसे, अत्यन्त जागनेसे, अत्यन्त लघन करनेसे, पानीमें तैरनेसे, अत्यन्त मार्गके चलनेसे, अत्यन्त व्यायाम या परिश्रम करनेसे, अति-शय विरुद्ध चेष्टा करनेसे, विषम उपचारोंसे वात पित्तादि और मल मूत्रादि दौघ तथा रुधिरके अधिक निकलनेसे अर्थात् वमन विरेचन और फस्तके खुलवानेसे, रस रक्तादि धातुओंके क्षय होनेसे, चिन्ता, शोक और रोगद्वारा शरीरके क्षय होनेसे, मल मूत्रादिकोंके वेगको रोकनेसे, आमसे, चोटके लगनेसे या मर्म स्थानोंमें चोटके लगनेसे, हाथी, घोडा, ऊँट आदि शीघ्र चलनेवाली सवारियों पर बैठकर जानेसे, कुपित हुई जो बलवान वायु वह शरीरकी खाली नाडियोंमें भरकर अनेक प्रकारके सर्वाङ्गव्यापी या एकाङ्गव्यापी रोगोंको उत्पन्न करता है ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥

पूर्वरूप और रूप ।

अव्यक्तं लक्षणं तेषां पूर्वरूपामीति स्मृ-
तम् ॥ ५ ॥ आत्मरूपन्तु यद्रचत्कम-
पायो लघुता पुनः । संकोचः पर्वणां
स्तंभो भ्रंगोऽस्थनां पर्वणामपि ॥ ६ ॥
लोमहर्षः प्रलापश्च पार्श्वपृष्ठकटि-
ग्रहाः । खांज्यपाङ्गुल्यकुब्जत्व-
शोषोऽङ्गानामनिद्रता ॥ ७ ॥ गर्भ-
शुक्ररजोनाशः स्पन्दनं गात्रसु-
प्तता । शिरोनासाक्षिजत्रूणां त्रिवा-
याश्चापि हुण्डनम् ॥ ८ ॥ भेदस्तो-
दातिराक्षेपो मोहश्चायास एव च ।
एवंविधानि रूपाणि कुरुते कुपितो-
ऽनिलः । हेतुस्थानविशेषाच्च भवेद्रो-
गविशेषकृत् ॥ ९ ॥

जो जो वातव्याधि आगे कही जायँगी उनके जो अप्रकट (किंचित् प्रकाशित) लक्षण है उनको पूर्व-रूप कहते हैं । वे ही प्रकट होनेपर लक्षण कहे जाते

हैं और उनकी लघुता अथवा न्यूनताको प्रपाय कहतेहैं अर्थात् कुपितवायुका अल्प होजाना ही रोग-का नाश कहा जाता है । संधियोंमें संकोच होना और जकड़ना, अस्थि और संविधानोंमें टूटने फूटनेकेसी पीडा, रीमांच हो आना, न्यर्थ वक्रवाद, पयलो, पीठ और कमरमें पीडाका होना, गजत्व (लंगटापन), पंगुत्व (ललापन), कुब्जत्व (कुबड़ापन), अगोंका सूखना, निद्राका नाश, गर्भ शुक्र और रजसा नाश, शरीरका काँपना, शरीरमें शून्यता, मन्तक, नाक, नेत्र, हृमियं और गर्दन इनका भीतरको चले जाना, अथवा टूट हो जाना, छेदन और भेदनकेसी पीडा, शूल, आक्षेप, मोह, श्रम, ये सब कुपित हुई वायुके लक्षण हैं । इसके अतिरिक्त वायु कफावृत्त होकर मन्यास्तम्भ रोगको उत्पन्न करती है । यह हेतुविशेष स्थानविशेषमें विविध रोगोंको उत्पन्न करती है । जैसे पकाशयमें स्थित होकर आँनोंको कुँनती है इत्यादि और भी हेतुस्थान विशेष सम्बन्धी रोग जानने ॥ ५ ॥

॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥

कोष्ठाश्रितवायुके कार्य ।

तत्र कोष्ठाश्रिते दुष्टे नियहो मूत्रव-
र्चसोः । ब्रध्महृद्रोगगुल्मार्श्वपार्श्वशू-
लश्च मारुते ॥ १० ॥

अवस्थानके विशेषसे वायुके कार्य कहे जाते हैं । कोठेमें स्थित वायु दुष्ट होनेसे मलमूत्रका अवरोध करती है एवं ब्रध्म (वद), हृदयरोग, गुल्म, चवासीर और पसलियोंमें पीडा करती है ॥ १० ॥

सर्वाङ्गकुपितवायुके कार्य ।

सर्वाङ्गकुपिते वाते गात्रस्फुरणभञ्ज-
नम् । वेदनाभिः परिताश्च स्फुटन्ती-
वास्थिसन्धयः ॥ ११ ॥

सब अगोंमें वायु कुपित होनेसे सब अंगोंका फड़-कना, टूटना और पीडाके होनेसे हड्डियोंकी संधियोंमें फूटनसी होती है ॥ ११ ॥

गुदामें स्थित वायुके कार्य ।

ग्रहो विण्मूत्रवातानां शूलाध्माना-
श्मशर्कराः । जंघोरुत्रिकहृत्पृष्ठ
रोगशोफा गुदे स्थिते ॥ १२ ॥

गुदस्थ वायुके कुपित होनेसे मल, मूत्र आर अधा-
वायु ये सब रुक जाते है तथा शूल, पेटका फूलना, अ-
शमरी, शर्करा रोगकी पीडा, जवा, ऊरु, त्रिक, हृदय
और पांठमे पीडा, तथा सूजन ये सब होते है ॥ १२ ॥

आमाशयस्थितवायुके कार्य ।

रुक्पाश्वोदरहन्त्राभ्यां तृष्णाद्गारवि-
पूचिकाः । कासः कण्ठास्यशोषश्च
श्वासश्चाामाशयस्थिते ॥ १३ ॥

आमाशयमे स्थित दूषित वायु पसलियेमे पीडा,
हृदयमे शूल, नाभि और पेटमे पीडा, पियास, डकार,
विपूचिका (हैजा), खाँसी, मुख और कंठका सूख-
ना तथा श्वासको उत्पन्न करती है ॥ १३ ॥

पक्वाशयस्थवायुके कार्य ।

पक्वाशयस्थोऽन्त्रकूजं शूलाटोपो क-
रोति च । कृच्छ्रमूत्रपुरीषत्वमानाह-
न्त्रिकवेदनाम् ॥ १४ ॥

पक्वाशयमे स्थित दूषित वायु आंतोंका कूजना,
शूल, पेटमे गुडगुडाहट, मलमूत्रका कठिनतासे उत-
रना, पेट बंधासा रहना और त्रिकस्थानमे पीडा
इन सब विकारोंको करती है ॥ १४ ॥

इन्द्रियोंमें स्थित वायुके कार्य ।

श्रोत्रादिष्विन्द्रियबंधं कुर्यात् क्रुद्रः
समीरणः ॥ १५ ॥

कर्ण आदि इन्द्रियोंमे स्थित दूषित वायु इन्द्रियों-
का नाश करती है ॥ १५ ॥

रसधातुगतवायुके लक्षण ।

त्वग्रूक्षास्फुटिता सुता कृशा कृष्णा
च तुद्यते । आतन्यते सरागा च स-
र्वरूक् त्वग्गतेऽनिले ॥ १६ ॥

त्वचागत वायुके दूषित होनेसे त्वचा रूखी,
फटीसी, सुन्न, कृग, काली, फलीसी और कुछ लाली
लिये होती है, त्वचामे पीडा और सब संधिस्थानों-
मे पीडा होती है ॥ १६ ॥

रक्तगतवायुके लक्षण ।

रुजस्तीत्राः ससन्तापा वैवर्ण्यं कृश-
ताऽरुचिः ॥ गात्रे चारूषि भुक्तस्य
स्तम्भश्चासृग्गतेऽनिले ॥ १७ ॥

रक्तगत दूषित वायु—सताप सहित तीव्र पीडा
करती है, शरीरका रंग बदल जाता है, कृशता अरु,
चि, शरीरमे फुत्सिये और भोजन करनेके पश्चात्
देह बंधोसो हो जाती है ॥ १७ ॥

मांसमेदोगतवायुके लक्षण ।

गुर्वगन्तुद्यतेऽत्यर्थं दण्डमुष्टिहतं त-
था । सरूक् स्तिमितमत्यर्थं मांस-
मेदोगतेऽनिले ॥ १८ ॥

मांस और मेदस्थित वायुसे शरीरमे भारीपन,
विना परिश्रमके श्रम मालूम होना, लठिया या मुक्का
मारनेकेसो पीडा होना और अत्यन्त चीसे मारना
आदि लक्षण होते है ॥ १८ ॥

मज्जास्थिगतवायुके लक्षण ।

भेदोऽस्थिपर्वणां सन्धिशूलं मांसव-
लक्ष्यः । अस्वप्नं सन्ततारूक् च
मज्जास्थिकुपितेऽनिले ॥ १९ ॥

मज्जा और अस्थिगत दूषित वायुसे अस्थि, गाठोंमें
ओर संधिस्थानेमे भेदनेसरीखी पीडा, मांस और
बलका क्षय, निद्रानाश और निरंतर पीडा होती है १९

शुक्रगतवायुके लक्षण ।

क्षिप्रं मुञ्चति बध्नाति शुक्रं गर्भमथा-
पि वा । विकृतिं जनयेच्चापि शुक्र-
स्थः कुपितोऽनिलः ॥ २० ॥

शुक्रस्थित दूषित वायु वीर्यको शीघ्र छोडती है,
अथवा गर्भको शीघ्र छोडती है, तथा सुखाकर पतन
करदेती है या वीर्य और गर्भको विकृत कर देती है
॥ २० ॥

शिरागतवायुके लक्षण ।

कुर्याच्छिरागतः शूलं शिरःकुञ्च-
नपूरणम् । बाह्याभ्यन्तरमायामं ख-
ल्लीकुञ्जत्वमेव च ॥ २१ ॥

शिरागत दूषित वायु—शरीरमे शूल, शिराओमे संकोच और स्थूलता करतो है । वाह्यायाम, आभ्यन्तरायाम, खल्ली और कुवडापन इन विकारोको उत्पन्न करतो है ॥ २१ ॥

स्नायुगत और सन्धिगतवायुके लक्षण।
सर्वाङ्गिकाङ्गरोगांश्च कुर्व्यात् स्नायु-
गतोऽनिलः । हन्ति सन्धिगतः स-
न्धीशूलशोथो करोति च ॥२२ ॥

स्नायुगत दूषितवायु-सर्वाङ्गन्यापी और एकाङ्गन्यापी रोगोको उत्पन्न करती है। सन्धिगत वायु—सन्धिस्थानोको नष्ट करती है, स्तम्भता और शूलको उत्पन्न करती है तथा सूजनको भी करती है ॥ २२ ॥

पित्तकफाश्रितप्राणवायुके कार्य ।
प्राणे पित्तावृते छर्दिर्दाहश्चैवोपजा-
यते । दौर्बल्यं सदनं तन्द्रा वैरस्यश्च
कफावृते ॥ २३ ॥

प्राणवायु पित्तसंयुक्त होनेसे वमन और दाहको उत्पन्न करती है । कफयुक्त प्राणवायु—दुर्बलता ग्लानि तन्द्रा और मुखमे विरसता इन सब विकारोको उत्पन्न करती है ॥ २३ ॥

पित्तकफाश्रितउदानवायुके कार्य ।
उदाने पित्तयुक्ते तु दाहो मूर्च्छा भ्र-
मः क्लमः । अस्वेदहर्षो मन्दाग्निः शी-
तता च कफावृते ॥ २४ ॥

पित्तयुक्त उदानवायु—दाह, मूर्च्छा, भ्रम और ग्लानि उत्पन्न करती है । कफयुक्त उदानवायु—पसीने का नहीं आना, रोमांचोका हो जाना, मन्दाग्नि और शीतताको उत्पन्न करती है ॥ २४ ॥

पित्तकफाश्रितसमानवायुके कार्य ।
स्वेददाहौष्ण्यमूर्च्छाः स्युः समाने
पित्तसंयुते । कफेन संगो विण्मूत्रे
गात्रहर्षश्च जायते ॥ २५ ॥

पित्तयुक्त समानवायुसे पसीनेका आना, दाहका होना, गरमी मालूम होना और मूर्च्छाका होना । कफसंयुक्त समानवायु—मलमूत्रको अवरोध और रोमांचोको करती है ॥ २५ ॥

पित्तकफाश्रितअपानवायुके कार्य ।
अपाने पित्तयुक्ते तु दाहौष्ण्यं रक्त-
मूत्रता । अधःकाये गुहृत्वश्च शीत-
ता च कफावृते ॥ २६ ॥

पित्तयुक्त अपानवायु—दाह, गरमी और मूत्रमें लाली प्रकट करती है । कफयुक्त अपानवायु—नीचेके शरीरमे भारोपन और शीतलताको करती है ॥ २६ ॥

पित्तकफाश्रितव्यानवायुके लक्षण ।

व्याने पित्तावृते दाहो गात्रविक्षेपणं
क्लमः । गुरूणि सर्वगात्राणि स्तम्भ-
नं चास्थिपर्वणाम् ॥ २७ ॥ लिङ्गं
कफावृते व्याने चेष्टास्तम्भस्तथैव चा
स्तम्भनोत्क्षेपण श्वास-शोफ-शूलानि
सर्वशः ॥ २८ ॥

पित्तयुक्त व्यानवायु—दाह, हाथ, पाँव आदि अङ्गोंका इधर उधर फेकना और ग्लानिको करती है । कफयुक्त व्यानवायु—सब अङ्गोंमें भारोपन, हड्डी और संधियोंका जकडना, हड्डी और पर्वस्थानोंका जकडना, सर्व स्तम्भकी चेष्टा, सब शरीरका जकडना, अङ्गोंका पटकना, श्वास, सूजन और शूल इत्यादि विकारोंको करती है ॥ २७ ॥ २८ ॥

चिकित्सा ।

नरश्च शुद्धवातार्त्तमादौ पानं नियो-
जयेत् । वसायाश्चाथ मज्जाया तैल-
स्याथ घृतस्य च ॥ २९ ॥

प्रथम वातसे पीडित मनुष्यको वमन विरेचनादिसे शुद्ध करके चर्बी या मज्जा अथवा तेल या घृत पान करावे ॥ २९ ॥

अभ्यङ्गं स्वेदनं वस्तिर्नस्यं स्नेहो वि-
रेचनम् । स्निग्धाम्ललवणस्वादु वृष्यं
वातामयापहम् ॥ ३० ॥

तेलादिककी मालिश—स्वेदन, वस्तिकर्म, नस्य, स्नेहन, विरेचन, स्निग्ध, अम्ल, लवण, मधुर और पुष्टिकारक पदार्थोंका भक्षण करना ये सब वातरोगनाशक है ॥ ३० ॥

पटोलकफलैर्यूषो वृष्यो वातहरो
लघुः । वाट्यालककृतो यूषः परं वा-
तविनाशनः ॥ ३१ ॥

परवलोका यूष-वृष्य, वातनाशक और हलका है ।
खिरँटीका किया हुआ यूष विशेष वातनाशक है ३१ ॥

पञ्चमूलीबलासिद्धं क्षीरं वातामये
हितम् ॥ ३२ ॥

पंचमूल और खिरँटीको दूधमें पकाकर पीनेसे
वातरोग दूर होता है ॥ ३२ ॥

कोलं कुलित्था सुरदारुरास्त्रा भाषा
उमातैलफलानि कुष्ठम् । वचाशता-
ह्वयवचूर्णमम्लमुष्णानि वाताभयि-
नां प्रदेहः ॥ ३३ ॥

धेर, कुलथी, देवदारु, रायसन, उड़द, अलसी,
सरसो, कूठ, वच, सौफ और जौका चून् इन सबको
एकत्र काँजीमें पीसकर किंचित् गरम करके लेप
करनेसे वातरोग शमन होते हैं ॥ ३३ ॥

स्नेहैश्वतुर्भिर्दशमूलमिश्रैर्गन्धोषधैश्चा-
निलहत्प्रदेहः । अनूपमत्स्यामि-
षवेशवारैरुष्णैः प्रदेहः पवनापहः
स्यात् ॥ ३४ ॥

चारों प्रकारके स्नेह (तेल, घृत, चर्बी, मज्जा)
दशमूल और अगर चन्दनादि सुगन्धित पदार्थोंका
बनाया हुआ प्रलेप वातनाशक है । अनूपदेशकी म-
छली और अनूपदेशके जीवोंका मांस और वेशवार
इनका गरम २ प्रलेप वातनाशक है ॥ ३४ ॥

वेशवार ।

निरस्थिपिशितं पिष्टं स्वित्रं गुडघृता-
न्वितम् । कृष्णामरिचसंयुक्तं वेशवा-
रमिति स्मृतम् ॥ ३५ ॥

हड्डीरहित शूकर आदिके मांसको लेकर उसको
खूब पीस लेवे । फिर उसमें गुड और घी डालकर
पकावे तथा कालीमिरचका चूर्ण डाल देवे तो वेशवार
सिद्ध होता है ॥ ३५ ॥

बृहत्फाणिज्जकोत्थेन रसेन परिले-
पयेत् । प्रदेशं वायुना प्रसृतं नरः सम्य-
क् प्रशान्तये ॥ ३६ ॥

बडीवनतुलसीके या महुएके रसको वायुसे पीडित
स्थानपर लेप करनेसे वायु शांत होती है ॥ ३६ ॥

तिसिडीकदलैः सिद्धं ताललिण्डि-
क्या सह । पिष्ट्वा सुखोष्णमालेपं
दद्याद्वातरुजापहम् ॥ ३७ ॥

इमलीके पत्तोंके साथ ताड़की डाढीको पकाकर
उसको पीसकर उसको कुल्लर गरम करके लेप करे ।
तो वातरोग दूर होता है ॥ ३७ ॥

वाजिगन्धादिगण ।

वाजिगन्धा बला तिस्रो दशमूलमि-
हौषधम् । द्वे गृध्रनख्यौ रास्त्रा व
गणो मारुतनाशनः ॥ ३८ ॥

असगन्ध, खिरँटी गंगोरन, नागबला, दशमूलकी
समस्त औषधियें, सोंठ, दोनो प्रकारकी व्याघ्रनखी
और रायसन इन सब औषधियोंका समूह वातनाशक
है ॥ ३८ ॥

सहचराऽमरदारु सनागरं काथितम-
म्भसितैलविमिश्रितम् । पवनपीडि-
तदेहगतिः पिबन् द्रुताविलम्बितगो
भवतीच्छया ॥ ३९ ॥

पियावांसा, देवदारु और सोठ इनके काथमे अंडी-
का तेल डालकर वातसे नष्ट हो गई है गमनशाक्ति
जिसकी ऐसा मनुष्य पीवे । इसको पीनेसे वह यथे-
च्छानुसार जीव या देरमें चलसकता है ॥ ३९ ॥

रसोनपेय ।

पलमर्धपलश्चापि रसोनस्य च कुट्टि-
तम् । हिंगुजीरकसिन्धूत्थसौवर्चल-
कटुत्रिकैः ॥ ४० ॥ चूर्णैस्तैर्माषको-
न्मानैरवचूर्ण्य विलोडितम् । यथा-
ग्निभक्षितं प्रातरुबुक् काथालुपानतः
॥ ४१ ॥ दिने दिने प्रयोक्तव्यं मास-
भेकं निरन्तरम् । वातरोगान्निहन्त्या-
शु चार्दितं चापतन्त्रिकम् ॥ ४२ ॥
एकाङ्गरोगिणे दद्यात्तथा सर्वाङ्गरो-
गिणे । उरुस्तम्भेषु गृध्रस्यां कृमि-
दोषे विशेषतः ॥ ४३ ॥

उत्तम लशुन ४ तोले लेकर कूटलेवे, फिर उसमें हींग, जोरा, सैधानमक, काला नमक और त्रिकुटा इन प्रत्येक औषधियोंका चूर्ण एक२ मासा उक्त कुट्टे हुए लशुनमें मिला देवे। फिर इसमेंसे जठराग्नि बलानुसार अंडके काथके साथ पीवे। इसको प्रतिदिन एक महानितक पीनेसे समस्त वातरोग, अर्दित, अपतत्रक, एकांगरोग, सर्वांगरोग, ऊरुस्तम्भ, गृध्रसीवात और विशेषकरके कृमिरोग दूर होते हैं ॥ ४०—४३ ॥

स्वलपरसोनपिण्ड ।

पलमर्द्धपलं वापि रसानेस्य सुकुट्टितम् । हिंशुजीरकसिन्धुत्थसौवर्चलकटुत्रिकैः ॥ ४४ ॥ चूर्णितैर्माषकोन्मानैरवचूर्ण्य विलोडितम् । यथाग्निभक्षितं प्रातरुबुक् काथानुपानतः ॥ ४५ ॥ दिने दिने प्रयोक्तव्यं मासमेकं निरंतरम् । वातामयं निहन्त्येव मर्दितं चापतत्रकम् ॥ ४६ ॥ एकाङ्गरोगिणां रोगं तथा सर्वाङ्गरोगिणाम् । ऊरुस्तम्भं गृध्रसीश्च शूलद्वन्द्वं कृमीनपि । कटिपृष्ठामयं हन्याज्जाठरश्च समीरणम् ॥ ४७ ॥

चार तोले अथवा दो तोले उत्तम लशुन लेकर कूट लेवे, फिर उसमें हींग, जोरा, सैधानमक, कालानमक और त्रिकुटा प्रत्येकका चूर्ण एक२ मासा मिला देवे। फिर इसमेंसे अग्निके बलानुसार अंडके काथसे प्रतिदिन एक महानितक नित्य पीवे तो इससे वातरोग, अर्दित, अपतत्रक, एकांगरोग, सर्वांगरोग, ऊरुस्तम्भ, गृध्रसी, वात, शूल, द्वन्द्वज्वरोग, कृमिरोग कटिरोग, पृष्ठकी पीडा और पेट सम्बन्धी वातरोग सब दूर होते हैं ॥ ४४—४७ ॥

लशुनयोग ।

पिष्टा सुसूक्ष्मं लशुनस्य कन्दं घृतेन लिह्याद्घृतभोजनाशी । तस्य प्रणश्यन्ति हि वातरोगाः संस्कारहीनात्पुरुषादिवार्थाः ॥ ४८ ॥

लशुनकी गोंठोको उत्तम विधिसे घारीक पीसकर चीमें मिलाकर सेवन करे और भोजनमें खूब घी डाल

कर खाय तो इससे सर्वप्रकारके वातरोग नष्ट होते हैं। जिस प्रकार सरकाररहित पुरुषका धन नष्ट हो जाता है ॥ ४८ ॥

दशमूलस्य निर्यूहो हिंशुपुष्करचूर्णितः । शमयेत्पारिपीतस्तु वातं मिम्मिणसंज्ञितम् ॥ ४९ ॥

दशमूलके निर्यूहमें हींग और पोहकरमूलका चूर्ण डालकर पीवे तो मिनमिनापन दूर होता है ॥ ४९ ॥

वातग्रहप्रदेशे च स्वेदः कार्यो विजानता । सिद्धार्थकविमिश्रैस्तु पत्रैर्मदनमिश्रितैः ॥ ५० ॥ यद्वा तेन विधानेन सदोषत्वान्न सिद्ध्यति ॥ ५१ ॥

जो अंगवातसे ग्रसित हो उसपर स्वेद विधिको जाननेवाला वैद्य स्वेद देवे। सफेद सरसो और मैनफलके पत्ते इनका यथोक्तविधिसे पीसकर स्वेद देवे ॥ ५० ॥ ५१ ॥

भेषजैः स्नेहसंयुक्तैर्भोज्यैर्हि प्रचितो मलः । मार्ग रुद्धोऽनिलं रुन्ध्यात्तस्मात्तमनुलोमयेत् ॥ ५२ ॥ क्षीणो यश्च विरेचैः स्यात्तं निरूहैरुपाचरेत् ५३

स्नेहयुक्त औषधियोंको सेवन करनेसे अथवा पुष्टिकारक घृतादिकके भोजन करनेसे मल बद्ध होजाता है इससे वातका मार्ग रुकजाता है। उसके रुकनेसे वायु संचार नहीं करसकती, इसकारण उस समय अनुलोमन करनेवाले पदार्थोंसे वायुको अनुलोमन करे। जो वातरोगी विरेचनादिसे क्षीण हो गये है उनके निरूह वस्ति देवे ॥ ५२ ॥ ५३ ॥

शीतोष्णस्निग्धरूक्षाद्यैर्वातलो यो न शाम्यति । विकारस्तत्र विज्ञेयो दुष्टमेवात्र शोणितम् ॥ ५४ ॥

जो वातविकार शीतल, उष्ण, स्निग्ध और रूक्षादि चिकित्सासे शमन न हो तो उसको दूषित रुधिरका कारण जानना ॥ ५४ ॥

पिबेत्कुटजबीजानां चूर्णं प्रातः सुखांबुना । शुण्ठीचित्रकयुक्तानां कुक्षिवातनिवारणम् ॥ ५५ ॥

कुंडेके बजिाका चूर्ण, सांठका और चीतेका चूर्ण इन सबको मंदोष्ण जलके साथ पीनेसे कुक्षिगत वात दूर होती है ॥ ५५ ॥

प्रातरुत्थाय यत्नेन तैलमात्रासमान्वितम् । पिवेद्वृषणवातघ्नमार्द्रकस्वरसंबुधः ॥ ५६ ॥

नित्य प्रातःकाल उठकर यत्नपूर्वक अदरखके रसमें तेल मिलाकर पान करनेसे वातमें पीडित वृषण आरोग्य होते हैं ॥ ५६ ॥

ऊर्ध्ववातविनाशाय वासापत्रसमन्वितम् । श्यामामूलं पिवेत्पिष्टं क्षरिण परिमिश्रितम् ॥ ५७ ॥

ऊर्ध्ववातको नष्ट करनेके लिये अरुसेके पत्ते और अनन्तमूलकी जड़को दूधमें पीसकर पीवे ॥ ५७ ॥

सुप्तवाते त्वसृङ्मोक्षं कुर्याच्च बहुशो भिषक् । दिह्याच्च लवणागारधूमैस्तेलसमन्वितैः ॥ ५८ ॥

सुप्तवान (सुप्तवायु), रोगमें वैद्य विशेष कर रक्तमोक्षण अर्थात् फस्त खुलवावे । संधानमक, घरका धुआसा और तेल इनको एकत्र करके इनका लेप करे ॥ ५८ ॥

हृदयानिलनाशाय गुडूचीमरिचान्वितम् । पिवेत्प्रातः प्रयत्नेन सम्यग्गुणाम्भसा सह ॥ ५९ ॥

हृदयकी वातको दूर करनेके लिये गिलोय और काली मिरच इनको एकत्र पीसकर गरम जलके साथ पीवे ॥ ५९ ॥

पिवेदुष्णाम्भसा पिष्टं साश्वगन्धं विभीतकम् । गुडयुक्तं प्रयत्नेन हृदयानिलनाशनम् ॥ ६० ॥

असर्गंध और बेहेडेको एकत्र पीसकर गुडमें मिला कर गरम जलके साथ पीनेसे हृदयकी वायु दूर होती है ॥ ६० ॥

देवदारुसमायुक्तनागरं परिपेषितम् । हृद्रातवेदनात्तैस्तु पीत्वा सुखमवाप्नुयात् ॥ ६१ ॥

देवदारु और सोठ इनको एकत्र पीसकर गरम-जलके साथ पीनेसे हृदयगत वातकी पीडा गमन होती है ॥ ६१ ॥

हृदि प्रकुपिते सिद्धमंशुमत्याः - पयोहितम् ॥ ६२ ॥

पृश्निपर्णीको दूधमें औटाकर पीनेसे हृदयगत कुपित वायु शांत होती है ॥ ६२ ॥

साल्वणस्वेद ।

काकोल्यादिः सवातघ्नः सर्वाम्लद्रव्यसंयुतः । सानूपमांसः सुस्विन्नः सर्वस्नेहसमन्वितः ॥ ६३ ॥ सुखोष्णः

स्पष्टलवणः साल्वणः परिकीर्तितः । तेनोपनाहं कुर्वीत सदा वै वातरोगिणाम् ॥ ६४ ॥ काकोल्यादिगणो

ग्राह्या नाष्टवर्गिकसंज्ञिकः । वातघ्नो दशमूलादिवर्गोऽम्लो दाडिमादिकम् ॥ ६५ ॥ सर्वस्नेहश्चतुःस्नेहो लवणं

सैन्धवादिकम् । अम्लादिभिश्च संस्कार्यं काकोल्यादित्रयं त्रिभिः ॥ ६६ ॥

काकोल्यादि गणकी समस्त औषधियें, दशमूलादिगणकी औषधियें, सर्व प्रकारके अम्लद्रव्य और सर्वप्रकारके अतृपदेशके जीवोका मांस, इन सबको एकत्र पकाकर इसमें सर्व प्रकारके स्नेह (तेल, घी, चर्बी, मज्जा) और लवण डालकर इसको सुखोष्ण कर लेवे । इसको साल्वणस्वेद कहते हैं । इसका उपनाह (स्वेद) सदैव वातरोगियोंको देना चाहिये, यहां काकोल्यादिगण अष्टवर्ग समझना चाहिये । वातघ्नगण दशमूलादि गण जानना । दाडिमादिक पदार्थोंका अम्लवर्ग समझना । सर्वस्नेह-चारों प्रकारके स्नेह जानने । लवण—सैधवादि नमक जानने । काकोल्यादि तीनों गणकी औषधियोंको अम्लादि द्रव्योंसे संस्कार करना चाहिये ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥

महासाल्वणस्वेद ।

दशमूली बलास्तिस्त्रो विदारी पृश्निपर्णिका । शतावय्यंश्वगन्धा च जीवनीयगणैः सह ॥ ६७ ॥ श्यामा पुनर्नवैरण्डः पृष्ठपर्णी च मर्कटी ।

पुण्डरीकं तुगाक्षीरी शाल्मली सुर-
दारु च ॥ ६८ ॥ कुष्ठशूरणमूलानि
कर्कटाख्यामृता निशा। आघ्रात-
कोकिलाख्यश्च शटी पाषाणभेदकः ॥
॥ ६९ ॥ अलकौ वसुधण्टा च सू-
र्यावर्तः सकाञ्चनम्। यवकोलकु-
लित्थाश्च तिलोमासर्षपास्तथा ॥ ७० ॥
रास्नाप्रसारणीकुष्ठं मातुलुङ्गाम्लवे-
तसौ। चुक्रानूपानि मांसानि स्नेहाश्च-
त्वार एव च ॥ ७१ ॥ काञ्जिकं दधि
तक्रश्च जम्बीरं तित्तिडीफलम्। कुक्कु-
टीविजिपूरश्च सर्वाणि लवणानि च ॥
॥ ७२ ॥ सुखोष्णेस्तेलयुक्तस्तु सुपि-
ष्टैर्वातरोगिषु। उपनाहः सदा का-
र्यो वातव्याधिनिवृत्तये ॥ ७३ ॥ अयं
हि गुल्मश्च तथान्त्रवृद्धिं हन्यात्तथा
शोफमुद्गप्रमाङ्गम्। हन्यान्नरस्यादि-
तवातमुद्गप्रमाजालुशोथश्च तथादितं
वा ॥ ७४ ॥

दशमूलकी समस्त औषधिये, तिरैटो, कघो, गगे-
रन, विदारिकन्द, पिठवन, जतावर, असगन्ध, जीव-
नीयगणकी समस्त औषधिये, अनन्तमूल, पुनर्नवा,
अण्डकी जड, पृश्नपर्णी, कौल, पुण्डेरिया, वज्रलो-
चन, समल, देवदारु, कूट, जिमीकन्द, काकडागिगी,
गिलोय, हल्दी, अम्बाडा, तालमखाना, कचूर, पाषा-
णभेद, कुकरोंदा, बडी मौलीसरी, घण्टापाटल,
सूरजमुखी, कचनार, जौ, वेर, कुलथी, तिल, अलसी,
सरसो, रायसन, प्रसारन, कूट, विजौरा नीवू अम्ल-
वेत, चूक, अनूपदेशके जीवोंका सास, चारोप्रकारके
स्नेह, काजो, दही, तक्र, जम्बीरी नीवू, शमारु,
मीठा विजौरा और सर्व प्रकारके लवण इन सबको
एकत्र पीसकर तेल मिलाकर सुहाता सुहाता सदैव
वातरोगको दूर करनेके लिये उपनाह लेप देवे। यह
महासाल्वण स्वेद—गुल्म, अंत्रवृद्धि, सर्वशरीरगत
शोथ, उग्र अर्दित वात और जानुपर्य्यत शोथको दूर
करता है ॥ ६७—७४ ॥

वायौ जठरजे युञ्ज्यात्* क्षारचूर्णादि-
पाचनम्। विशेषतस्तु कोष्ठस्थे वाते

क्षिप्रं पिबेन्नरः ॥ ७५ ॥ पाचनीयर-
स्युत्तैरन्यैर्वा पातयन्मलात्। शुद्धप-
काशयस्थे तु कमोदावर्तिकं हितम् ॥
॥ ७६ ॥ आमाशयस्थे त्वनिले प्रश-
स्तं प्राग्भोजनं दीपनपाचनश्च। प्र-
च्छर्दनं तीक्ष्णाविरेचनश्च पुराणमुद्गा
यवशालयश्च ॥ ७७ ॥

उदरगत वायुरोगमें क्षार, चूर्ण और पाचनादि
प्रयोग करे। विशेष कर कांष्ठगत वातमें यह विधि
करनी चाहिये। पाचन औषधियोंके काथोंके साथ
अथवा अन्य रेचनकी औषधियोंके द्वारा मलको
निकाले। गुदास्थित और पक्षाशयगत वातरोगमें
उदावर्तोक कर्म करे। आमाशयगत वातरोगमें
प्रथम दीपन और पाचन पदार्थोंका भोजन करे।
नया वमन, तीक्ष्ण, विरेचन, पुरानी मूंग, जौ और
शालिधान ये सर्व हितकारक हैं ॥ ७५ ॥ ७६ ॥
॥ ७७ ॥

तान् क्वाथ ।

भूतकिपथ्याशाटिपुष्कराणि विल्वं
शुद्धी सुरदारु शुण्ठी। विडङ्गवा-
सातिविपाकणा च क्वाथास्त्रयः सा-
मसमीरणघ्नाः ॥ ७८ ॥

अजवायन, हरड, कचूर और पोहकरमूल इनका
अथवा बेलगिरी, गिलोय, देवदारु और सोठ इनका
अथवा वायविडंग, अडूसा, अतीस और पीपल इनका
क्वाथ आगसहित वातको दूर करता है ॥ ७८ ॥

षड्धरणयोग ।

आमाशयगते वायौ छिदिः स्वापो
यथाक्रमम्। देयः षड्धरणो योगः
सप्तरात्रं सुखायुता ॥ ७९ ॥

आमाशयगत वातरोगमें वमन और निद्रा इत्यादि
सेवन करावे। अथवा सात दिनतक सुहाते २ गरम
जलके साथ षड्धरण योग देवे ॥ ७९ ॥

१ सात दिन सेवन करानेकी विधि यह है कि—पहले दिन
वमन कराकर फिर दूसरे दिनसे लेकर छ दिनतक पाठक्रमके
अनुसार साडे चार २ मासेकी मात्रासे लेकर सबको एकत्र
कर सेवन करावे।

चित्रकेन्द्रग्रवौ पाठा कटुकातिवि-
षाऽभया । महाव्याधिप्रशमनो योगः
षड्धरणः स्मृतः ॥ ८० ॥ योगेऽस्मिन्
भिषजा प्राह्याः षण्णां षड्धरणाः
पृथक् । दिनेषु षट्सु दातव्यास्तेन
षड्धरणः स्मृतः ॥ ८१ ॥

चीता, इन्द्रजौ, पाठ, कुटकी, अतीस और हरड
इन सबके समुदायको "षड्धरण" कहते हैं । यह
महाव्याधिको शमन करनेवाला है । इसमें प्रत्येक
औषधि एक २ धरण (टंक) प्रमाण लेनी चाहिए
इसको छः दिन तक सेवन करना चाहिए ॥ ८० ॥ ८१ ॥

वह्नेः संवृहणं कार्यं कर्मोदावर्तिकं
तथा । पक्काशयगते वापि देयं स्नेह-
विरेचनम् ॥ ८२ ॥

पक्काशयगत वातरोगमें प्रथमअग्निको दीपन करने-
वाले कर्म करने चाहिए, फिर उदावर्त रोगोक्त
क्रिया करनी और स्नेह विरेचन देना चाहिए ॥ ८२ ॥

वस्तयः शोधनयाश्च प्राशाश्च लव-
णोत्तराः ॥ कार्यो बस्तिगते चापि
विधिर्वस्तिविशोधनः ॥ ८३ ॥

तथा शोधनवस्ति और लवणयुक्त प्राश देने
चाहिए, वास्तिगत रोगमें भी शोधनवस्ति आदि विधि
करनी चाहिए ॥ ८३ ॥

श्रोत्रादिषु प्रकुपिते कार्यश्चानिल-
हा क्रमः । स्नेहाभ्यङ्गोपनाहाश्च मर्द-
नालेपनानि च ॥ ८४ ॥

कर्णादि इन्द्रियोंमें कुपित वायु पर वातनाशक
क्रिया करनी चाहिए । एव स्नेह, अभ्यंग, उपनाह,
मर्दन और लेपन इत्यादि उपचार करने चाहिए ८४

वायौ त्वगाश्रितेऽभ्यङ्गं स्नेहं स्वेदश्च
योजयेत् । रक्तस्थे शीतलाल्लेपान्वि-
रेकं रक्तमोक्षणम् ॥ ८५ ॥

रसगत अर्थात् त्वचागतवातमें अभ्यङ्ग, स्नेह और
स्वेद प्रयोग करे । रक्तगतवातरोगमें शीतल लेप,
विरेचन और रक्तमोक्षण कर्म करे ॥ ८५ ॥

मांसमेदोगते वाते सविरेकं निरूह-
णम् । अस्थिमज्जागते स्नेहं बाह्या-
भ्यन्तरतो भिषक् ॥ ८६ ॥

मांस और मेदगत वातरोगमें विरेचन और निरू-
हण वस्ति देवे । अस्थि और मज्जागतवातरोगमें स्नेह-
पान और स्नेहका मर्दन करे ॥ ८६ ॥

केतक्यादितेल ।

केतकिनागबलातिबलानां यद्बहुलेन
रसेन विपक्वम् । तैलमनल्पतुषो-
दकसिद्धं मारुतमस्थिगतं विनि-
हन्ति ॥ ८७ ॥

केवडा, नागबला, कंधी, इन तीनोंके स्वरस या
काथमे थोड़ी कांजी डालकर उसमें तैलको पकावे ।
यह तैल अस्थिगत वातको दूर करता है ॥ ८७ ॥

बलादिवृतमण्ड ।

सन्धिस्त्रायुगते वाते दाहस्नेहोपना-
हनम् । हर्षोऽन्नपानं शुक्रस्थे बलशु-
क्रकरं हितम् ॥ ८८ ॥

सन्धिगत और स्त्रायुगत वातरोगमें--दाह, स्नेह
और उपनाहन कर्म करना चाहिए । शुक्रगत वात-
रोगमें हर्षजनक कार्य, बल और वीर्यवर्द्धक अन्नपान
सेवन कराने चाहिए ॥ ८८ ॥

अवगाहकुटीकर्षुः प्रस्तराभ्यङ्गव-
स्तिभिः । जयेत्सर्वगतं वातं शिरा-
मोक्षश्च बुद्धिमान् ॥ ८९ ॥

सर्वांगगत वातरोगको तैलका अवगाहन, प्रस्तर-
स्वेद, अभ्यंग, वस्तिप्रयोग और शिरामोक्ष (फस्त
या नस खुलवाना) इत्यादि उपचारोंसे जीते ॥ ८९

एकाङ्गवातं मतिमाञ्छृङ्गैश्चावस्थि-
तं जयेत् ॥ ९० ॥ वक्षस्त्रिकः स्कन्ध-
गतं वायुं मन्यागतं तथा । वमनं
हन्ति नस्यश्च कुशलेन प्रयोजि-
तम् ॥ ९१ ॥

एकांग वातरोगमें शृंगी या तोम्बी आदि लगावे । वक्ष, त्रिक, स्कन्ध और मन्यागत वातरोगको वमन तथा नस्यके द्वारा दूर करे ॥ ९० ॥ ९१ ॥

सर्वाङ्गगतमेकांगस्थितं वापि समी-
रणम् । रुणाद्धि केवलो बस्तिस्तोय-
वैगभिवाचलः ॥ ९२ ॥

सर्वांग अथवा एकांगवातरोगको केवल वास्ति प्रयोग ही दूर करता है, जिसप्रकार जलके वेगको पर्वत रोकता है ॥ ९२ ॥

पिबैदैरण्डतैलं वा बस्तिकुक्षिगुदा-
श्रये । दशमूलीकषायेण मातुलुङ्ग-
रसेन वा ॥ ९३ ॥

वास्ति, कुक्षि और गुदाश्रित वातरोगमें दशमूलके काथके साथ अथवा विजौरे नीचूके रसके साथ अंडीके तेलको पीवे ॥ ९३ ॥

मूर्द्धस्थे स्नेहकृत्तस्य शिरो बस्तिश्च
लेपनम् ॥ ९४ ॥

मूर्द्धास्थित वातरोगमें स्नेहका मर्दन, शिरोवस्ति और लेप करे ॥ ९४ ॥

बलाविल्वश्रृते क्षीरे घृतमण्डं विपा-
चयेत् । तस्य शुक्तिं प्रकुर्वीत नस्यं
शीर्षगतेऽनिले ॥ ९५ ॥

खिरैटी और वेलगिरीके काथमें दूध और घृत-
मंड डालकर पकावे । फिर उसका शुक्त बनाकर
उसका नास लेनेसे शिरोगत वातरोग दूर होता है
॥ ९५ ॥

तैलं संकुचिते त्वंगे माषसैन्धवसा-
धितम् । बाहुशीर्षगते नस्यं पान-
धौपरिभक्तकम् ॥ ९६ ॥

जो अंग वातसे सिकुड जाय उसपर उडद और
सैधोनमकसे पकाये हुए तेलको मेल । बाहु और
शीर्षगत वातरोगमें उपरोक्त तेलका नस्य और भोजन-
के पश्चात् पान करे ॥ ९६ ॥

गर्भे शुष्के तु वातेन बालानाश्चापि
शुष्यताम् । सिताकाशमर्यमधुकै-
र्हितमुत्थापने पयः ॥ ९७ ॥

वातसे जो गर्भ सूखजाय और गर्भिणीका शरीर
कृश होजाय और बालक सूखजाय तो मिश्री कुम्भेर
और मुलैठी इनके द्वारा दूधको पकाकर सेवन करावे
॥ ९७ ॥

हनुग्रहके लक्षण ।

जिह्वानिलेखनाच्छुष्कचर्वणादाभिवा-
ततः । कुपितो हनुमूलस्थः संश्रयि-
त्वाऽनिलो हनुम् ॥ ९८ ॥ करोति
विवृतास्यत्वमथवा संवृतास्यताम् ।
हनुग्रहः स तेन स्यात्कृच्छ्राच्चर्वण-
भाषणम् ॥ ९९ ॥

जिह्वाको घिसनेसे, सूखे पदार्थोंके भक्षण करनेसे,
हनु अर्थात् ठोड़ीमें चोटके लगनेसे हनु(ठोड़ी) की
मूलमें स्थित वायु कुपित होकर मुखको खोलदे अथवा
बंद कर दे, यह रोगी अत्यंत कष्टसे खाता है और
बोलता है, इसको हनुस्तम्भ कहते हैं ॥ ९८ ॥ ९९ ॥

चिकित्सा ।

संवृतं चिबुकं स्विन्नामुन्नाभ्यास्यश्च
बुद्धिमान् । विवृतां नामयित्वा तु
कुर्व्यादायामवात्क्रियाम् ॥ १०० ॥

मिचेहुये मुखको वैद्य स्निग्धपदार्थोंसे मलकर
बफारा देकर खोल देवे और जो रोगीका मुख खुला
रहगया होय तो पूर्वोक्त उपायोसे उसके मुखको बंद
कर देवे ॥ १०० ॥

सगुडां पक्वाबिम्बीन्तु प्राक्षिप्य वद-
नान्तरे । स्रस्तं सङ्गमयेत् स्थानं
स्निग्धस्विन्नश्च नाशयेत् ॥ १०१ ॥

गुडके साथ पकीहुई कन्दूरीको मुखके भीतर रख
कर फिर उसको दो अंगुली और अँगूठेसे दबाकर
घृतादि चिपडकर तथा बफारा देकर बंद करदेवे १०१

अर्दिते नवनीतेन खादेन्माषेण्डरीं
नरः । अर्दिते शोथयुक्ते तु वमनं रक्त-
मोक्षणम् ॥ १०२ ॥ श्लेष्मभागे क्षयं नीते
बृंहणः समुपाचरेत् । रसोनं घृततै-
लाभ्यां पिबेद्वाप्यर्दितापहम् ॥ १०३ ॥

अर्दितरोगमे नैनीघीके साथ उड्दकी बडी बना-
कर खानी चाहिये । शोथयुक्त अर्दितरोगमें वमन
और रक्तमोक्षण करे । इसप्रकार करनेसे जब
कफका भाग क्षय होजाय तब वृंहण (पुष्टिकारक)
पदार्थ देवे । लशुनको घृत और तेलके साथ खानेसे
अर्दितरोग दूर होता है ॥ १०२ ॥ १०३ ॥

जिह्वास्तम्भक लक्षण ।

वाग्वादिनीशिरासंस्थो जिह्वां स्त-
म्भयतेऽनिलः । जिह्वास्तंभः स ते-
नान्नपानवाक्येष्वनीशता ॥ १०४ ॥

जब वायु वाणीके वहानेवाली नसोमे प्राप्त होकर
जिह्वाको स्ताम्भित करदेते है तो उसको जिह्वास्तम्भ
कहते है । इससे अन्न पानका भक्षण करनेकी और
बोलनेकी शक्ति नष्ट होजाती है ॥ १०४ ॥

चिकित्सा ।

जिह्वास्तम्भे यथाऽवस्थं वातव्याधि-
चिकित्सितम् । सामान्योक्ता क्रिया
चात्र अर्दितस्य हिता मता ॥ १०५ ॥

जिह्वास्तम्भरोगमे दोपानुसार वातव्याधिपर कही
हुई चिकित्सा करे और अर्दितोक्त सामान्य क्रिया
भी इसमें करनी चाहिए ॥ १०५ ॥

मन्यास्तम्भके लक्षण ।

दिवास्वप्नासनस्थानो विकृतोर्ध्वं नि-
रीक्षणैः । मन्यास्तम्भं प्रकुरुते स एव
श्लेष्मणावृतः ॥ १०६ ॥

दिममे सोनेसे, विकृतासन, या विपमस्थानमे बैठनेसे
अथवा विकृतरूपसे ऊपरको देखनेसे कफ सहित
वायु मन्या अर्थात् ग्रीवाकी नाडीको स्तम्भन कर-
देती है इसको मन्यास्तम्भ कहते है ॥ १०६ ॥

मन्यास्तम्भकी चिकित्सा ।

पञ्चमूलीकृत काथो दशमूलीकृतो-
ऽथवा । रूक्षं स्वेदं तथा नस्यं मन्या-
स्तम्भे प्रयोजयेत् ॥ १०७ ॥

इसमे पंचमूलका काथ अथवा दशमूलका काथ
देवे । तथा रूक्षस्वेद और नस्य प्रयोग करे ॥ १०७ ॥

कुब्जलक्षण ।

हृदयं यदि वा पृष्ठमुन्नतं क्रमशः
सरुक् । क्रुद्धो वायुर्यदा कुर्व्यात्तदा
तं कुब्जमादिशेत् ॥ १०८ ॥

कुपितहुई वायु हृदय और पीठको क्रमसे पीडा
सहित जब ऊंचा करती है तब उसको कुब्ज
(कुबडा) कहते है ॥ १०८ ॥

कुब्जकी चिकित्सा ।

वातघ्नैर्दशमूल्या च वातकुब्जमुपा-
चरेत् । स्नेहैर्मांसरसैर्वापि प्रवृद्धन्तं
विवर्जयेत् ॥ १०९ ॥

नवीन कुब्जक वातरोगमे वातनाशक औषधियें,
दशमूलका काथ, स्नेहपान और मांसरस इत्यादि
उपायोंके द्वारा दूर करे और बहुत दिनोंके कुब्जकरो-
गकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए ॥ १०९ ॥

शिरोग्रहके लक्षण ।

रक्तमाश्रित्य पवनं कुर्व्यान्मूर्द्धधराः
शिराः । रूक्षाः सवेदनाः कृष्णाः
सोऽसाध्यः स्याच्छिरोग्रहः ॥ ११० ॥

वात रुधिरके आश्रित होकर शिरको धारण करने
वाली नाडीको रूखी, पीडायुक्त और काली कर दे तो
इसको शिरोग्रह कहते है । यह शिरोग्रह असाध्य
है ॥ ११० ॥

शिरोग्रहकी चिकित्सा ।

शिरोग्रहे तु कर्तव्या शिरोगतमरु-
त्क्रिया ॥ १११ ॥

शिरोग्रह रोगमे वातज शिरारोगके समान चिकि-
त्सा करनी चाहिए ॥ १११ ॥

बाहुशोषका निदान ।

अंसदेशस्थितो वायुः शोषयित्वां-
ऽसबन्धनम् । अंसबन्धनशोषः स्या-
द्बाहुशोषः सवेदनः । शिरां संकुच्य
तत्रस्थो जनयत्यपबाहुकम् ॥ ११२ ॥

स्कन्ध(कन्धे) मे रहनेवाली वायु दूषित होकर
स्कन्धके बन्धनको सुखा देवे तो इसको असबन्धन

गोप कहते हैं और जो इसमें पीडा हो तो वाहुगोप कहते हैं । जिसमें स्कंधस्थित वायु स्कन्धदेशकी गिराओको संकुचित कर दे उसको अपवाहुक कहते हैं ॥ ११२ ॥

गृध्रसीके लक्षण ।

स्फिक्रपायुकटिप्रष्ठोरुजानुजङ्घापदं क्रमात् । गृध्रसीस्तंभरुकृतोदैर्गृह्णाति स्पन्दते मुहुः ॥ ११३ ॥ वाताद्रात-कफाभ्यां सा विज्ञेया द्विविधा पुनः । वातजायां भवेत्तोदो देहस्यातीव-वक्रता ॥ जानुजङ्घोरुसन्धीनां स्फुरणं स्तब्धता भृशम् ॥ ११४ ॥ वातश्लेष्मोद्भवायान्तु गौरवं वह्नि-मार्दवम् । तन्द्रा मुखप्रसेकश्च भक्त-द्वेषस्तथैव च ॥ ११५ ॥

वायु प्रथम कूलेको जकडकर फिर क्रमसे गुदा, कमर, पीठ, ऊरु, जानु, जंघा और पांवाको जकड देवे या पीडित करदेवे, नोचनेकीसी पीडा हो और वारंवार कपे इसको गृध्रसीरोग कहते हैं । वातज और वातकफज इसप्रकार यह गृध्रसीरोग दो प्रकार का है । तहां वातज गृध्रसीरोगमें तोडने सरीखी पीडा, देहमें अत्यन्त वक्रता, जानु, जंघा और ऊरुकी संधियोंमें स्फुरण और अत्यन्त स्तब्धता होती है । वातकफजगृध्रसीरोगमें—शरीरमें भारी-पन, अग्निकी मन्दता, तन्द्रा, मुखसे पानी गिरना और भोजनमें अरुचि ये सब लक्षण होते हैं ॥ ११३—११५ ॥

विश्वाचीके लक्षण ।

तलं प्रत्यङ्गुलीनां या कण्डरा बाहु-पृष्ठतः । बाहोः कर्मक्षयकरी वि-श्वाचीति हि सोच्यते ॥ ११६ ॥

बाहुके पीछेसे लेकर हाथके ऊपरके भागतक प्रत्येक अगुलिके तले जो मोटी नसें हैं उनको वायु दूषित करके हाथसे लेना, देना, खोलना, फैलाना, मुट्टी बंद करना आदि बाहोंके कामोंको रोकनेवाला जो रोग होता है उसको विश्वाची कहते हैं ॥ ११६ ॥

बाहुशोषकी चिकित्सा ।

बाहुशोषे पिबेत् भुक्त्वा सर्पिः क-ल्याणकं महत् । वातेऽपवाहुके नस्यं स्वेदं चोत्तरभक्तिकम् ॥ ११७ ॥

बाहुशोपरोगमें भोजन करनेके पश्चात् वृहत्कस्याण घृत पान करे । अपवाहुक रोगमें भोजनके पश्चात् नस्य और स्वेद देवे ॥ ११७ ॥

बलानूलशृतं तोयं सैन्धवेन समन्वि-तम् । बाहुशोषगते वायौ मन्यास्त-म्भे च शस्यते ॥ ११८ ॥

खिरैटीकी जडका काथ बनाकर उसमें सैधानमक डालकर पीवे तो बाहुशोष रोग और मन्यास्तम्भ रोग दूर होता है ॥ ११८ ॥

परमौषधमपवाहुकमन्यास्तम्भौर्ध्व-जत्रुगतरोगे । शीतलजलेन नावन-मुपशमने जिङ्गिनी च पुरः ॥ ११९ ॥

अपवाहुक, मन्यास्तम्भ और सर्व प्रकारके ऊर्ध्वज-त्रुगोगोंमें मजीठ और गूगल इनको शीतल जलमें पीसकर नास देवे यह उत्तम औषधि है ॥ ११९ ॥

नस्येन शीतपयसा शुकाशिवामिलाजि-ङ्गिनी पिष्टा । अपवाहुककन्धरपीडा-मचिराद्रिनाशयेद्योगमिदम् ॥ १२० ॥

कौछकी जड और मजीठको शीतल जलमें पीस-कर उसकी नास लेनेसे अपवाहुक रोग और कंधेकी पीडा बहुत शीघ्र दूर होती है ॥ १२० ॥

काकोदुम्बारिदुग्धैः सरामठैर्हेरैस्-र्वयोगविच्च । कपिकच्छुभूलयुक्तैर्नस्यै-रपवाहुजां पीडाम् ॥ १२१ ॥

कद्रुमरका दूध, हांग और कौछकी जड इन सबको एकत्र पीसकर नास लेनेसे अपवाहुकरोग दूर होता है ॥ १२१ ॥

मूलं बलायास्त्वथ पारिभद्रं तथा-त्मगुप्तास्वरसं पिबेद्वा । नस्यन्तु यो माषरसेन दद्यान्मासादसौ वज्रस-मानबाहुः ॥ १२२ ॥

खिरैटीकी जड और फरहद अथवा नीमकी जड इनका काथ पीवे, या कौछका रस पीवे अथवा उडदोंके काथकी नस्य देवे तो एक महीनेमें बाहु वज्रके समान हो जाती है ॥ १२२ ॥

दशमूलीबलामाषकाथं तैलाज्यमि-
श्रितम् । सायं भुक्त्वा पिवेत्रस्यं
विश्वाच्यामपवाहुके ॥ १२३ ॥

दशमूल, खिरौटी और उडद इनके काथमें तेल और घी डालकर सन्ध्याके समय भोजनके पश्चात् इसका नस्य देवे तो विश्वाची और अपवाहुक रोग दूर होता है ॥ १२३ ॥

माषतैल ।

माषसिन्धुबलारास्नादशमूलकर्हिगु-
भिः । वचाजटाशताख्याभिः सि-
द्धं तैलं सनागरम् ॥ १२४ ॥ ऊर्ध्वं भ-
क्ताशनाद्ग्रन्याद्वाहुशोषापवाहुकौ ।
पक्षाघातं तथैवाशु विश्वाचीमुद्धता-
मपि ॥ १२५ ॥

उडद, सैधानमक, खिरौटी, रायसन, दशमूल, हींग, वच, वालुछड, शतावर और सोठ इनके काथ और कल्कके द्वारा तेलको सिद्ध करे । इसको भोजन करनेके पश्चात् सेवन करे तो यह वाहुशोष, अपवाहुक पक्षाघात और भयंकर विश्वाची रागको भी शीघ्र ही दूर करे है ॥ १२४ ॥ १२५ ॥

खञ्ज और पंगुके लक्षण ।

वायुः कट्याश्रितः सक्थनः कण्डरा-
माक्षिपेद्यदि । खञ्जस्तदा भवेज्जन्तुः
पंगुः सक्थनोर्द्वयोर्वधात् ॥ १२६ ॥

खंज और पंगुके लक्षण—रुमरमें रहनेवाली वायु जंघाकी नसोको ग्रहण कर एक पांवको जकड देवे उसको "खंज" कहते हैं और जिसमें दोनो जांघोकी नसोको पकडकर दोनो पावोको जकड देवे उसको "पंगु" कहते हैं ॥ १२६ ॥

कलाय खञ्जके लक्षण ।

कम्पते गमनारम्भे खञ्जन्निव च ग-
च्छति । कलायखंजन्तं विद्यान्मु-
क्तसन्धिप्रबन्धनम् ॥ १२७ ॥

कलायखंजके लक्षण—कलायखंजमें रांगी थर २ कम्पित होकर विकलभावसे गमन करता है तथा उसके सन्धिबन्धन शिथिल हो जाते हैं उस रोगको कलायखंज कहते हैं ॥ १२७ ॥

पादहर्षके लक्षण ।

हृष्येते चरणौ यस्य भवेताश्च प्रसु-
तकौ । पादहर्षः स विज्ञेयः कफमा-
रुतकोपजः ॥ १२८ ॥

जिस रोगमें कफके तथा वायुके कुपित होनेसे दोनो पांव रोमांच युक्त होकर झनझन करने लगते हैं उसको पादहर्ष जानना चाहिये ॥ १२८ ॥

पाददाहके लक्षण ।

पादयोः कुरुते दाहं पित्तासृक्सहितौ-
ऽनिलः । विशेषतश्चक्रमणात्पाददा-
हं तमादिशेत् ॥ १२९ ॥

पाददाह रोगमें वायु पित्त और रुधिरके साथ मिलकर दोनो पांवोंमें दाह उत्पन्न करती है और चलते समय विशेष कर दाह होती है तो उसको पाददाह कहते हैं ॥ १२९ ॥

क्रोष्टुशीर्षिके लक्षण ।

वातशोणितजः शोथो जानुमध्ये
महारुजः । ज्ञेयः क्रोष्टुकशीर्षिस्तु
स्थूलक्रोष्टुकशीर्षिवत् ॥ १३० ॥

वायु और रक्तसे दोनो जानु अर्थात् घुटनोकी संधियोंमें अत्यन्त व्यथायुक्त सूजन उत्पन्न हो और वह सूजन क्रोष्टु अर्थात् स्यारके शिरके समान बड़ी हो उसको क्रोष्टुशीर्षि कहते हैं ॥ १३० ॥

वातकण्टकके लक्षण ।

रुक् पादे विषमे न्यस्ते श्रमाद्वा जाय-
ते यदा । वातेन गुल्फमाश्रित्य तमा-
हुर्वातकण्टकम् ॥ १३१ ॥

ऊंचे नीचे स्थानमें पांवके पडनेसे अथवा श्रमसे पाद मुचगाय वायु कुपित होकर गुल्फ स्थान (टकनो) में पीडा उत्पन्न करे उसको वातकण्टक, कहते हैं ॥ १३१ ॥

चिकित्सा ।

खञ्जपंग्वोः कलायाख्ये विश्वाची-
पादहर्षयोः ॥ पाददाहे च गृध्रस्यां

१ लोकमें मोच पडगई मानते हैं ।

क्रोष्टुके वातकण्टके ॥ १३२ ॥ शिरां
विद्धवाशु कुर्वीत यथाविधि चिकि-
त्सकः ॥ उपाचरेदभिनवं खञ्जं पंगुम-
थापि वा । विरेकाऽऽस्थापनस्वेदगु-
ग्गुलुस्नेहवस्तिभिः ॥ १३३ ॥

खंज, पंगु, कलायखज, विश्वाची, पादहर्ष, पाद-
दाह, गृधसी क्रोष्टुशीर्षि और वातकण्टक इन सब
रोगोंमें विधिपूर्वक वैद्य शिरावेव करे अर्थात् नस
छेदे । जो खंज और पंगुरोग, नवीन हों तो विरे-
चन, आस्थापन स्वेद, गुग्गुलु स्नेह और वस्तिकर्म ये
सब उपचार करे ॥ १३२ ॥ १३३ ॥

पादहर्षे तु कर्तव्यः कफव्याधिहरो
विधिः । वातरक्तक्रमं कुर्यात् पाद-
दाहे विशेषतः ॥ १३४ ॥

पादहर्ष रोगमें कफनाशक विधि करनी चाहिए ।
पाददाह रोगमें विशेषकर वातरक्तके समान चिकि-
त्सा करनी चाहिये ॥ १३४ ॥

मसूरविदलैः पिष्टैः शृतशीतिन वा-
रिणा । चरणौ लेपयेत्सम्यक् पाद-
दाहप्रशान्तये ॥ १३५ ॥

मसूरकी दालको औंटाकर जीतल किये हुए जलके
साथ पीसकर पांवाँपर लेप करनेसे पां गोंकी दाह दूर
होती है ॥ १३५ ॥

नवनीतेन सालिसौ वह्निना परिता-
पितौ । मुच्येते चरणौ क्षिप्रं परिता-
पात्सुदारुणात् ॥ १३६ ॥

पांवाँपर नैनी वीका लेप करके उनको अग्निसे
सेकनेसे तत्काल पांवाँकी दाह दूर होती है ॥ १३६ ॥

गुग्गुलुं क्रोष्टुशीर्षे तु शुद्धीं त्रिफ-
लाम्भसा । क्षरिणैरण्डतैलं वा पिवे-
द्वा वृद्धदारुकम् ॥ १३७ ॥ रसं ति-
त्तिरिमांसस्य क्रोष्टुके मधुरं पिवंत ।
वातरक्तक्रियाभिश्च जयेज्जांबुकम-
स्तकम् ॥ १३८ ॥

१ लाक्षादि तैलकी मालिशसे हाथ और पैरोंकी दाह
दूर होजाती है ।

क्रोष्टुशीर्षि रोगमें गिलोय और त्रिफलके काथमें
गुग्गुलु डालकर पीवे । अथवा दूधमें अंडीका तेल
डालकर पीवे । या त्रिघोरक चूर्णको दूधके साथ
सेवन करे । ततिरके मांसरसमें मिश्री आदि मधुर
पदार्थ डालकर पीवे । इस क्रोष्टुशीर्षरोगको वातर-
क्तकर कहीहुई चिकित्साके द्वारा जीते ॥ १३७ ॥
॥ १३८ ॥

रक्तावसेचनं कुर्यादभिक्षिणं वातक-
ण्टके । पिवेद्वरण्डतैलं वा दहत सू-
चीभिरेव वा ॥ १३९ ॥

वातकण्टकरोगमें बारवार रुधिर निकलवावे
अथवा अंडीके तेलको पीवे अथवा सुईमें दाग देना
चाहिये ॥ १३९ ॥

पुनर्नवायाः श्वेतायास्तैलं मूलेन
साधयेत् । वातकण्टकमाह्न्यात् पा-
दाभ्यङ्गेन मर्दनात् ॥ १४० ॥

सफेद पुनर्नवाकी जडको तैलमें पकाकर उसको
पात्रोमें मालिश करनेसे वातकण्टक रोग दूर होता है
॥ १४० ॥

वात ष्टीलानिदान ।

नाभिरधस्तात्सञ्जातः सञ्चारी यदि
वा चलः । अष्टीलावर्द्धनो ग्रन्थिरु-
र्ध्वमायत उन्नतः ॥ वात ष्टीलां वि-
जानीयाद्दहिर्मागावरोधिनीम् ॥ १४१ ॥

नाभिके नीचे चलायमान अथवा स्थिर गोलकार
कठिन, ऊपरसे कुछ चौड़ी, आडी, किंचित ऊँची,
ऐसी गांठ उत्पन्न हो और उसके होनेसे मल, मूत्र
और अधोवायुका अवरोध हो तो उसको वातष्टीला
कहते हैं ॥ १४१ ॥

प्रत्यष्टीलाके लक्षण ।

एतामेव रुजायुक्तां वातविण्मूत्ररो-
धिनीम् । प्रत्यष्टीलामिति वदेज्जठरे
तिर्यग्गुत्थिताम् ॥ १४२ ॥

पूवोक्त वातष्टीलाकी गांठ यदि उदर (नाभि) के
ऊपर उत्पन्न हो पीडा हो और मल मूत्रका अवरोध
हो तो प्रत्यष्टीला कहते हैं ॥ १४२ ॥

२ तेल मर्दन कराकर जिस तर्फसे ऊँचा हो उसके दूसरे
तर्फको सैचकर मोँच निकलवावे ।

दोनोंकी चिकित्सा ।

अष्टीलायाः क्रिया कार्या गुल्म-
स्यान्तरविद्रधेः । चूर्णं हिंग्वादिक-
श्चात्र पिवेदुष्णेन वारिणा ॥ १४३ ॥

अष्टीला, प्रत्यष्टीला आदिकी गुल्म और अन्तर-
विद्रधिके समान चिकित्सा करनी चाहिए । हिंग्वा-
दिचूर्णको गरमजलके साथ पीना चाहिये ॥ १४३ ॥

तूनीनिदान ।

अधो या वेदना याति वर्चोमूत्राश-
योत्थिता । भिन्दतीव गुदोपस्थं
सा तूनी नामतो मता ॥ १४४ ॥

जिस रोगमें मूत्राशय अथवा पक्वाशयमें पीडा
उत्पन्न होकर अत्यन्त जोरसे मलद्वार, लिंग अथवा
योनिमें फटनेकेसी पीडा प्रवेश करे उस रोगको
तूनी कहते हैं ॥ १४४ ॥

प्रतितूनीके लक्षण ।

गुदोपस्थोत्थिता यातु प्रतिलोमं
विधाविता । वैगैः पक्वाशयं याति
प्रतितूनीति सोच्यते ॥ १४५ ॥

जिस रोगमें मलद्वार अथवा उपस्थदेशसे पीडा
उत्पन्न होकर अत्यन्त जोरसे पक्वाशयमें प्रवेश कर-
ती है उस रोगको प्रतितूनी कहते हैं ॥ १४५ ॥

दोनोंकी चिकित्सा ।

तून्याश्च प्रतितून्याश्च प्रशास्ताः स्ने-
हवस्तयः । पिवेद्वा स्नेहलवणं पि-
पल्यादिमर्थाबुना । उष्णेन रामठक्षारं
प्रलीढमथवा घृतम् ॥ १४६ ॥

तूनी और प्रतितूनी दोनोंमें स्नेहवस्ति हितकारी है
अथवा घीके साथ सैधव नमकको खाय । अथवा
पिपल आदि औषधियोंको जलके साथ पीवे । या
गरम जलके साथ हींग और जवाखार सेवन करे
या घृतके साथ खाय ॥ १४६ ॥

तन्द्राके लक्षण ।

वाताद्वातकफात्तन्द्रा गौरवारोचका-
न्विता ॥ १४७ ॥

वातसे और वातकफसे तन्द्रा उत्पन्न होती है
इसमें भारीपन और अरुचि होती है ॥ १४७ ॥

तन्द्राकी चिकित्सा ।

अयोरजः श्वेतलोध्रमञ्जनं मरिचं
तथा । गोपित्तेन समायुक्तं तन्द्राना-
शनमुत्तमम् ॥ १४८ ॥

लोहेका चूर्ण, सफेद लोध, सफेद अंजन, काली
मिरच और गायका पित्त इन सबको एकत्र मिलाकर
अंजन लगानेसे तन्द्रा दूर होती है ॥ १४८ ॥

पलाण्डुहिंशुलशुनं वचाकटुकरोहि-
णी । जीवन्तीरससंयुक्तं तन्द्राविल-
यनं परम् ॥ १४९ ॥

प्याज, हींग, लशुन, वच, कुटकी और जीवन्ती
इन सबको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे तन्द्रा दूर
होती है ॥ १४९ ॥

आध्मानके लक्षण ।

साटोपमत्युग्ररुजमाध्मानमुदरं भृ-
शम् । आध्मानमिति जानीयाद्
घोरं वातनिरोधजम् ॥ १५० ॥

वायुसे पक्वाशय अत्यन्त फूल जाय तथा पक्वाशयमें
गुडगुड शब्द और अत्यन्त पीडा हो उसको आध्मान
रोग कहते हैं ॥ १५० ॥

प्रत्याध्मानके लक्षण ।

विमुक्तपार्श्वहृदयं तदेवामाशयोत्थि-
तम् । प्रत्याध्मानं विजानीयात्कफ-
व्याकुलितानिलम् ॥ १५१ ॥

वायु कफसे मिलकर आमाशयमें गुडगुडाहट
शब्द करे तथा आमाशय फूल जावे, पसली और
हृदयमें पीडा हो, व्याकुलता हो उसको प्रत्याध्मान
रोग कहते हैं ॥ १५१ ॥

आध्मानकी चिकित्सा ।

आध्माने लङ्घनं पूर्वं दीपनं पाचनं
ततः । फलवर्तिक्रियां कुर्व्याद्विस्ति-
कर्म च शोधनम् ॥ १५२ ॥

आध्मानरोगमे प्रथम लघन कराकर फिर दीपन और पाचन औपधि देवे, फलवर्ति क्रिया करे तथा वग्नि और वमन विरेचन देवे ॥ १५२ ॥

प्रत्याध्मानकी चिकित्सा ।

प्रत्याध्माने समुत्पन्ने कुय्याल्लङ्घनछर्दने । दीपनानि प्रयुञ्जीत पूर्ववद्वस्ति-
कर्म च ॥ १५३ ॥

प्रत्याध्मानरोगमे लघन और वमन करानी चाहिए तथा दीपन औपधिये और पूर्वोक्त वस्तिकर्म आदि भी करने चाहिए ॥ १५३ ॥

कंपवातके लक्षण ।

सर्वाङ्गकम्पः शिरसो वायुवेषथुसं-
ज्ञकः ।

जो सब अंगोको और शिरको कंपावे उसको कंपवायु कहते है ।

खल्लीके लक्षण ।

खल्ली तु पादजङ्घोरुकरमूलावभो-
टिनी ॥ १५४ ॥

जिसमे पाँव, जाँघ, ऊरु और हाथके मूल टेढे होने लगे उसको खल्ली कहते है ॥ १५४ ॥

कंप और खल्लीवातकी चिकित्सा ।

वायुं वेपथुनामानं स्वेदाभ्याङ्गानुवा-
सनैः । उपाचरेन्निरुहैश्च शिरोवस्ति-
विरेचनम् ॥ १५५ ॥

कंपवायुमे स्वेद, अभ्यंग, अनुवासन, निरुहव-
स्ति जिगेवन्ति और विरेचन कर्म करे ॥ १५५ ॥

कुष्ठसैन्धवयोः कल्कश्चुक्रतैलसम-
न्वितः । सुखोष्णो मर्दने योज्यः ख-
ल्लीशूलनिवारणः ॥ १५६ ॥

कूठ और मैधे नमकका कल्क चूकेके तेलके साथ सुहाता सुहाता मर्दन करे तो खल्लीशूल नष्ट होता है ॥

भल्लातकादिघृत ।

भल्लातकानि सिन्धूत्थमधूच्छिष्टम-
होपधम् । अम्लेन पयसा वाऽपि घृत-
मेतद्विपाचयेत् ॥ १५७ ॥ एतेनोद्धर्त्त-

नं कार्यं प्रदेहश्चैव शाम्यति । अति-
प्रवृद्धां खल्लीं तु तत्क्षणादेव नाश-
येत् ॥ १५८ ॥

भिल्लावे, सैधानमक, मांस और सोंठ इनका कल्क, कौजी और दूध इन सबको एकत्र करके इनमें घृतको सिद्ध करे । इस घृतका उद्धर्तन और प्रलेप करनेसे अत्यंत बढी हुई खल्लीवात तत्काल नष्ट होती है ॥ १५७ ॥ १५८ ॥

मूकमिन्मिण और गद्गदका निदान ।
आघृत्य वायुः सकफो धमनीः श-
ब्दवाहिनीः । नरान् करोत्यवचनान्
मूकमिन्मिणगद्गदान् ॥ १५९ ॥

कफसहितवायु शब्दके वहनेवाली नाडियोम प्राप्त होकर मनुष्योके वचनको क्रियारहित मूक (गूंगा) मिनमिन (मिनमिना नाकमे बोलना) और गद्गद (बोलते समय बीचके स्वर व्यंजनोको खा जाना) कर देवे उसको मूक, मिन्मिण और गद्गद वायु कहते है ॥ १५९ ॥

उपरोक्त तीनों रोगोंकी चिकित्सा ।

सारस्वत घृत ।

प्रस्थं घृतस्य पालिकैः शिशुवचाधात-
कीलाध्रलवणैः । आज्ञे पयसि सपा-
ठैः सिद्धं सारस्वतं नाम्ना ॥ १६० ॥
विधिवदुपयुज्यमानं जड गदमूकतां
क्षणाजित्वा । स्मृतिमातिमेधाप्रति-
भाः कुय्याति सम्यगिष्टवाग्भवति १६१

उत्तम गायका वी १ प्रस्थ (६४ तोले,) सहिजना, वच, धायकं फूल, लोध और सैधानमक इन प्रत्येकका कल्क चार चार तोले और वीके वरावर वकरीका दूध लेवे, इन सबको एकत्र मिलाकर उत्तम विधिसे घृतको सिद्ध करे तो यह सारस्वत घृत सिद्ध होता है । इस सारस्वतको विधिपूर्वक सेवन करनेसे— जड, गद्गद और मूकता क्षणभरमे दूर होती है तथा स्मरणशक्ति, मेधा और प्रतिभाकी वृद्धि होती है एवं वाणी स्पष्ट हो जाती है ॥ १६० ॥ १६१ ॥

कल्याणकलेह ।

सहरिद्रावचाकुष्ठं पिप्पलीविश्वभेष-
जम् । अजाजी चाजमोदा च यष्टीम-
धुकसैन्धवम् ॥ १६२ ॥ एतानि सम-
भागानि श्लक्ष्णचूर्णानि कारयेत् । त-
च्चूर्णं सर्पिषालोड्य प्रत्यहं भक्षयेन्नरः
॥ १६३ ॥ एकविंशतिरात्रेण भवे-
च्छ्रुतिधरो नरः । मेघदुन्दुभिनिर्घोषो
मत्तकोकिलानिःस्वनः ॥ जडगद्गदधू-
कत्वं लेहः कल्याणको जयेत् ॥ १६४ ॥

हलदी, वच, कूठ, पीपल, सोठ, जीरा, अजमोद,
गुलैठी और सधानमरु इन सबको समानभाग लेकर
वारीक चूर्ण करलेवे । इस चूर्णको घृतमे मिलाकर
प्रतिदिन भक्षण करे । इसके प्रभावसे २१ दिनमे
मनुष्य आसको धारण करनेवाला होजाता है और
उसका शब्द मेघ, दुन्दुभि और उन्मत्त कोकिलके
स्वरके समान होजाता है तथा जड, गद्गद और सूकता
दूर होती है इसको कल्याणकलेह कहते हैं ॥ १६२—
॥ १६४ ॥

मूत्रावरोधके लक्षण ।

मारुते प्रगुणे वस्तौ मूत्रं सम्यक् प्र-
वर्तते । विकारान्विविधान्वापि प्र-
तिलोमे भवन्ति च ॥ १६५ ॥

मूत्राशयमे रहनेवाली वायु जो दूषित न हो तो मूत्र
अच्छे प्रकारसे उतरता है और जो दूषित होजाय तो
अनेक प्रकारके अमरी और मूत्रकृच्छ्रके विकारोको
उत्पन्न करता है ॥ १६५ ॥

स्थाननामलक्षणके अनुसार

वातव्याधिनिदान ।

स्थाननामानुरूपैश्च लिङ्गैः शेषान्वि-
निर्दिशेत् । सर्वेष्वेतेषु संसर्गं पित्ता-
देरुपलक्षयेत् ॥ १६६ ॥

ऊपर जो वातरोग कहे है इनके सिवा और भी
अनेक प्रकारके वातरोग जानने । उनके स्थान और
रूपानुसार नाम निश्चय करने । जैसे—कुक्षिमे शूल हो
तो कुक्षिशूल, नखोमे पीडा हो तो नखभेद इत्यादि

इस अधिकारमें जितनी वातजनित व्याधि कही है वे
सब पित्त और कफसे मिश्रित है । परन्तु इनमे
वायु प्रधान है, पित्त, कफ अप्रधान है ॥ १६६ ॥

आक्षेपकवातके सामान्यलक्षण ।

यदा तु धमनीः सर्वाः कुपितोऽभ्येति
मारुतः । तदा क्षिपत्याशु मुहुर्मुहु-
र्देहं मुहुश्चरः ॥ १६७ ॥ मुहुर्मुहुस्तदा-
क्षेपादाक्षेपक इति स्मृतः ॥ १६८ ॥

जब वायु कुपित होकर सब धमनियोंमे प्रवेश
करती है तब वह वारंवार संचार करके शरीरको
वारवार चलायमान करती है । जैसे—हाथीपर
घैठनेसे झकांले लगते हैं ऐसे ही वारंवार हिलाती है।
वारंवार आक्षेप करनेसे इसको आक्षेपकरोग कहते हैं
॥ १६७ ॥ १६८ ॥

आक्षेपवायुके अपतन्त्रक और अपतानक

इन दोनोंभेदोंकी अवस्था विशेष ।

कुद्धः स्वैः कोपनैर्वायुः स्थानादूर्ध्वं
प्रवर्तते । पीडयन्हृदयं गत्वा शिरः
शंखौ च पीडयेत् ॥ १६९ ॥ धनुर्व-
त्रामयेद्वात्राण्याक्षिपेन्मोहयेत्तथा ।
आकृच्छ्रादुच्छ्रसेच्चापि स्तब्धाक्षो वा
निमीलिका ॥ कपोत इव कूजेच्च
निःसंज्ञः सौऽपतन्त्रकः ॥ १७० ॥
दृष्टिं सस्तभ्य संज्ञाश्च हत्वा कण्ठे
न कूजति । हृदि सुक्ते नरः स्वा-
स्थ्यं याति मोहं वृते पुनः ॥ १७१ ॥
वायुनादारुणं प्राहुरेके तमपतान-
कम् ॥ १७२ ॥

प्राक्त रुक्षादि कारणोसे कुपित हुई जो वायु अपने
निजस्थानको छोडकर ऊपर जाकर हृदयमे पीडा
करती है । फिर मस्तक और कनपटियोंको पीडा
करती है, शरीरको धनुषके समान नवा दे, चलनेपर
बेहोश करदे, बडे कष्टसे श्वास ले, नेत्र स्थिर होजाय
या मिचजावे और अचेत होकर कवृत्तरके समान
कूजे इस रोगको अपतन्त्रक रोग कहते हैं । दृष्टि बँव
जाय, संज्ञा जाती रहे, कण्ठसे कूजे, जब हृदयको
वायु छोडे तब सुख हो और जब पकड़ ले तो फिर

बहोशी होजाय इस दारुणरोगको अपतानक कहते हैं
॥ १६९ ॥ १७० ॥ १७१ ॥ १७२ ॥

दण्डापतानकके लक्षण ।

कफान्वितो यदा वायुर्धमनीप्वं व
तिष्ठति । स दण्डवत्स्तम्भयति कृच्छ्रो
दण्डापतानकः १७३ ॥

कफयुक्त वायु धमनी नाडियोंमें प्राप्त होकर शरी-
रको दण्डके समान जकड़ देवे, इसको दण्डापता-
नक कहते हैं, यह कृच्छ्र साध्य है ॥ १७३ ॥

धनुस्तम्भके लक्षण ।

धनुस्तुल्यो नमेद्यस्तु स धनुरतंभसं-
क्षितः । विवर्णवद्भ्रमः स्त्रस्नांगो
नष्टचेतनः । प्रस्विद्यंश्च धनुस्तम्भे
दशरात्रं न जीवति ॥ १७४ ॥

कुपित हुई वायु नाडियोंको मझुचित करके शरीरको
धनुपके समान नवा देती है इसकारण उसको धनु-
स्तम्भ रोग कहते हैं । इसमें वर्णका बदलना, दँतोंका
जकड़ना, अंगोंका शिथिल होना, मूर्च्छा होना और
स्वेद ये विकार होते हैं। धनुप स्तम्भ रोगी दश दिनतक
धचता नहीं ॥ १७४ ॥

अन्तरायामके लक्षण ।

अंगुलीगुल्फजठरहृद्भक्षोगलसंश्रितः ।
स्नायुप्रतानमनिलो यदा क्षिपति
वेगवान् ॥ १७५ ॥ विष्टब्धाक्षः स्त-
ब्धहनुर्भग्नपार्श्वः कफं वमन् ॥ अभ्यंतरं
धनुरिव यदा नमति मानवः ॥ १७६ ॥
तदा सोऽभ्यन्तरायामं कुरुते मारुतो
बली ॥ १७७ ॥

अंगुली, गुल्फ (पाँवकी गाँठ), पेट, हृदय, वक्षः-
स्थल और गलेमें रहनेवाली वायु वेगवान् होकर स्नायु-
समूहको सुखाकर बाहर निकाल दे तब उस मनुष्यके
नेत्र स्थिर होजाय, ठोड़ी जकड़जाय, पसलियोंमें पीडा
हो, मुखसे कफ गिरने लगे और जब मनुष्य आगेकी
ओरको नवजाता है तब वह बलवान् वायु अन्तरायाम-
को उत्पन्न करती है ॥ १७५ ॥ १७६ ॥ १७७ ॥

वाय्रायामके लक्षण ।

वाय्रायामप्रतानम्यो वाय्रायामं क-
रोति च । नममाध्यं वृथाः प्रादुः
पृष्टकट्यरुभक्षनम् ॥ १७८ ॥

जिमपदार अन्तरायाममें वायु प्रतानमें नमीने
राकर अन्तरायाममें प्रतानों है ऐसे ही पोटकी नमीने
में रोजेवाली वायु पोटमें भागहो नवाकर वायु-
नामको वमनों है अर्थात् पोट, कफ, और अन्त-
रोंको गोलकी है उगता प्रमा व जानता ॥ १७८ ॥

आक्षेपके भेद ।

कफापिनान्वितो वायुर्वायुर्गं च न क-
वलः । कुर्यादाक्षेपकं त्वंन्यं चतुर्द-
शमिवानजम् ॥ १७९ ॥

आक्षेपक वायु धार प्रतानों है । एकतन्त्रनिर्णय,
दूरी पित्तान्वित, गोमर्ग देवय नाज और पोटों
अभिघातः ॥ १७९ ॥

असाध्यत्व ।

गर्भपाननिमित्तश्च शोणितप्रसवाच्च
यः । अभिघातनिमित्तश्च न सिद्ध्य-
त्यपतानकः ॥ गते वेगे भवेन्स्वा-
रथ्यं सर्वेष्वक्षेपकादिषु ॥ १८० ॥

गर्भके पतित होनेमें, अन्यत रक्तके निरुद्धनेसे
और चोटके लगनेमें जो अपतानक रोग होता है वह
असाध्य है । सर्वप्रकारके आक्षेपकादि रोगोंमें वेगके
शात होनेपर सुख होता है ॥ १८० ॥

अथ चिकित्सा ।

अथापतानकेनार्त्तमद्यस्नाक्षमर्बपेन-
म् । अस्तब्धमद्मस्वेदं वहिरायामव-
जितम् ॥ १८१ ॥ अखट्टापातिनश्चै-
व त्वरितं समुपाचरेत् ॥ १८२ ॥

जो अपतानक वायुसे पीडित रोगीके नेत्र जबतक
कंपसहित न हो तथा जबतक लिंग जकड़े हुआ न
हो, पसीना न आवे, वहिरायामके लक्षण न हों और
जबतक खाटपर न पड़े तबतक बहुत शीघ्र उसकी
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १८१ ॥ १८२ ॥

तत्र प्रागेव सुस्विन्नं स्निग्धाङ्गे ती-
क्ष्णनावनम् । स्रोतोविशुद्धये गुं-
ज्यादन्नपाने ततो घृतम् ॥ १८३ ॥
विदार्यादिगणकाथे दधिक्षीररसैः
शृतम् । नातिमात्रं ततो वायुर्व्या-
प्नोति सहसैव च ॥ १८४ ॥

प्रथम अपतानक वातरोगाके शरीरको घृत तेलादिसे
स्निग्ध करके फिर तीक्ष्ण नस्य देवे, स्रोतांको विशुद्ध
करनेके लिये अन्नपान और विदारिगण आदि
औषधियांका काथ, दही और दूध इन सबके द्वारा
घृतको सिद्ध करके पिलावे इससे एकसाथ अत्यन्त
वायु कुपित नहीं होती ॥ १८३ ॥ १८४ ॥

वेगान्तरेऽम्बुमूर्च्छानमसकृच्चास्य रेच-
येत् । अवपीडैः प्रधमनैस्तीक्ष्णैःश्लेष्म-
निवर्हणैः ॥ १८५ ॥ श्वसनासु विमु-
क्तासु तथा संज्ञां न विन्दति ।
सौवर्चलाभयाव्योषसिद्धं सर्पिश्चले
कफे ॥ १८६ ॥

जब इसका वेग गमन हो जाय तब जलके द्वारा
शिरोविरेचन देवे तथा तीक्ष्ण और कफनाशक औष-
धियोंके द्वारा अवपीडन और प्रधमन करे, जो
श्वासादिकके विमुक्त होनेपर संज्ञा उत्पन्न हो और
कफ चलायमान हो तो काला नमक, हरड,
और त्रिकुटा इनके द्वारा घृतको सिद्ध करके पान
करावे ॥ १८५ ॥ १८६ ॥

अपतानकिने शस्तं दशमूलिशृतं
जलम् । पिप्पलीचूर्णसंयुक्तं जीर्णं मां-
सरसौदनम् ॥ १८७ ॥

अपतानक रोगमें दशमूलके काथमें पीपलका चूर्ण
डालकर देवे और इसके जीर्ण होनेपर मांसरसके
साथ भातका पथ्य देवे ॥ १८७ ॥

हन्त्यभुक्तवता पीतमम्लं दध्यपतान-
कम् । मरिचेन समायुक्तं स्नेहवस्ति-
रथापि वा ॥ १८८ ॥

१ श्वमना' प्रदनामोच्छ्रासवहा वमन्यस्तासैवति ।

भोजनसे प्रथम खट्टे दहीमें काली मिरचोका चूर्ण
डालकर पीवे अथवा स्नेहवस्ति प्रयोग करे ॥ १८८ ॥

महास्नेह ।

कुलित्थयवकोलानि भद्रदाव्यादिकं
गणम् । निष्काथ्यानूपमांसश्च तेना-
म्लैः पयसाऽथवा ॥ १८९ ॥ स्वादुक-
न्द्युतं क्षेमं महास्नेहं विपाचयेत् ।
स्वेदाभ्यङ्गावगाहैश्च नस्यपानालुवा-
सनैः । स हन्ति वातं तेनैव स्नेहस्वे-
दान्प्रयोजयेत् ॥ १९० ॥

कुलथी, जौ, बेर, देवदाव्यादिगणकी समस्त औष-
धियों, और अनूपदेशके जीवोंका मांस इन सबका
काथ बनाकर उसमें कौजी अथवा दूध तथा स्वादु-
कंद (विदारीकद) का रस डालकर महास्नेहको
(तैल या घृतको) पकावे । इसको स्वेद, अभ्यंग, अवगा-
हन, नस्य, पान, अनुवासन और स्नेहादि कर्मोंमें
प्रयोग करे तो वातरोग दूर होता है ॥ १८९ ॥ १९० ॥

तिल्वकघृत ।

पलाष्टकं तिल्वकतो वचायाः प्रस्थं
पलं शिशु च पञ्चमूलम् । सैरण्डासिं-
हीत्रिवृतं घटेऽपां पक्त्वा पचेत्पादशृ-
तेन तेन ॥ १९१ ॥ दध्नोपेतं यावश्शु-
कांशविल्वैः सर्पिष्प्रस्थं हन्ति तत्से-
व्यमानम् । दुष्टान्वातानेकसर्वाङ्गसं-
स्थान्योनिव्यापद्रुग्मगुल्मोदरश्च १९२ ॥

तिल्वक (लोव) आठ पल, वच १ प्रस्थ, सहिं-
जना, पंचमूल, अंड, कटेली और तिस्रोत ये प्रत्येक चार
चार तोले लेकर सबको एक घड़े जलमें पकावे ।
जब पकते पकते जल चौथाई भाग बाकी रहजाय
तब उतारकर छान लेवे फिर काथमें दही और जवा-
खार तथा एकप्रस्थ घृत डालकर घृतको सिद्ध करे ।
इस घृतको सेवन करनेसे अनेकप्रकारके दुष्ट वात-
रोग, एकांगवात, सर्वांगवात, योनिव्यापक रोग,
ब्रध्म, गुल्म और उदररोग ये सब दूर होते
हैं ॥ १९१ ॥ १९२ ॥

चिकित्सितमिदं कुय्याच्छुद्धे वाते
ऽपतानके । संसृष्टदोषे संसृष्टं कुय्या-
द्येन क्रियापथम् ॥ १९३ ॥

शुद्ध अपतानक वातरोगमे वैद्य इसप्रकार चिकि-
त्सा करे और मिले हुए दोषोमे मिश्रित कर्म करे
॥ १९३ ॥

दोषमाक्षेपके ज्ञात्वा शिरां विद्धा
यथाक्रमम् । समीरणहरं कर्म कार-
येत्कुशलो भिषक् ॥ १९४ ॥

आक्षेपक रोगमे दोषोको जानकर यथाविधिसे
शिरोवध करे और कुशल वैद्य समस्त वातनाशक
कर्म करे ॥ १९४ ॥

बाह्ये चाभ्यन्तरायामे योज्या चार्दि-
तवत्क्रिया । अथापतन्त्रकेनार्त्तमातुरं
नापतर्पयेत् । निरूहवस्ति वमनं सेव-
येन्न कदाचन ॥ १९५ ॥

बाह्यायाम और अभ्यन्तरायाम दोनो प्रकारके वात-
रोगोमे अर्दित रोगके समान चिकित्सा करे अपतन्त्र
रोगसे पीडित मनुष्योको कदापि तर्पण नहीं देवे तथा
निरूहवस्ती और वमन कदापि नहीं करावे ॥ १९५ ॥

श्वसनाः कफवाताभ्यां रुद्धास्तस्य
विमोक्षयेत् । तीक्ष्णैः प्रथमैः संज्ञां
तासु मुक्तासु विन्दति ॥ १९६ ॥

जब कफ और वायुसे श्वासादि रुकजाय तब
उसको तीक्ष्ण औषधियोंके द्वारा प्रथमन करे इससे
संज्ञा उत्पन्न होती है और श्वासादि भी ठीक हो
जाते हैं ॥ १९६ ॥

मरिचादिनस्य ।

मरिचं शिशुबीजानि विडङ्गश्च फणि-
ज्जकम् । एतानि श्लक्ष्णचूर्णानि दद्या-
च्छीर्षविरेचनम् ॥ १९७ ॥

कालीमरिच, सहिजनके बीज, वायविडंग, मरुवा
इन सबका वारीक चूर्ण चरके नास देवे तो इससे
शीघ्र ही सर्वप्रकारके वातकफसम्बन्धीय अपतन्त्रका-
दिरोग दूर होते हैं ॥ १९७ ॥

हिंम्वम्लवेतसं शुण्ठी ससौवर्चलदा-
डिमम् । पिवेद्वातकफघ्नश्च वातहृद्रो-
गनुद्धितम् ॥ १९८ ॥

हीग, अमलवेत, सोठ, कालानमक और अनार-
दाना इन सबको एकत्र जलमें पीसकर पान करनेसे
वातकफ-रोग नष्ट होते हैं तथा वात और हृदयरोग
भी दूर होता है ॥ १९८ ॥

हरीतकी वचा रास्ना सैन्धवं चाम्लवे-
तसम् । घृतमार्द्रकसंयुक्तमपतन्त्रक-
नाशनम् ॥ १९९ ॥

हरड, वच, रायसन, सैधानमक, अमलवेत और
अदरख इन सबको एकत्र पीसकर घृत मिलाकर
सेवन करनेसे अपतन्त्रक रोग दूर होता है ॥ १९९ ॥

विभीतकादिचूर्ण ।

विभीतकं सातिविषं भद्रमुस्तश्च पि-
प्पली । भाङ्गी सशृङ्गवेरश्च सूक्ष्मचू-
र्णानि कारयेत् ॥ २०० ॥ चूर्णान्ये-
तानि मद्येन पीतान्युष्णोदकेन वा ।
नाशयन्ति नृणां शीघ्रं कासश्वासा-
पतानकम् ॥ २०१ ॥

वहेडा, अतीस, नागरमोथा, पीपल, भारंगी और
काकडाशिगी इन सबको एकत्र पीसकर वारीक
चूर्ण करलेवे । इस चूर्णको मदिराके साथ अथवा
गरम जलके साथ पीनेसे मनुष्योको शीघ्र ही खाँसी
श्वास और अपतानक रोग दूर होता है ॥ २०० ॥
॥ २०१ ॥

पक्षाघातके लक्षण ।

गृहीत्वार्धन्तनो वायुः शिरास्नायुर्वि-
श्लोष्य च । पक्षमन्यतमं हन्ति सन्धि-
बन्धान्विमोक्षयन् ॥ २०२ ॥ कृत्स्नो-
ऽर्धकायं तस्य स्यादकर्मण्यो विचे-
तनः । एकाङ्गरोगन्तं केचिदन्ये पक्ष-
बंधं विदुः ॥ २०३ ॥ सर्वाङ्गरोगन्तं
केचित्सर्वकायस्थितेऽनिले ॥ २०४ ॥
दाहसन्तापमूर्च्छाः स्युःवार्याः पित्त-

समन्विते । शैत्यशोफगुरुत्वानि त-
स्मिन्नेव कफावृते ॥ २०५ ॥ शुद्ध-
वातहतं पक्षं कृच्छ्रसाध्यनमं विदुः ।
साध्यमन्येन संयुक्तमसाध्यं क्षयहे-
तुकम् ॥ २०६ ॥

जिस रोगमें वायु आधे शरीरको पकड़ कर शिरा
और स्नायुको सुखाकर सन्धिवन्धनको ढीलाकर एक
ओरके पक्ष अर्थात् एक तरफकी नाक, कान, नेत्र,
हाथ, पांव आदि आधे अंगको शिथिल कर देती
है तब उस मनुष्यका आधा या सब अंग कार्य
करनेको असमर्थ तथा अचेत होता है, इसको
कितने वैद्य एकांगरोग और कितने पक्ष कहते हैं ।
सम्पूर्णमें यह पक्षाघात नामसे विख्यात है । समस्त
शरीरमें अनिलके स्थित होनेपर सर्वांग रोग होता है ।
वात पित्तजनित पक्षाघात रोगमें दाह, संताप और
मूर्च्छा होती है । वातकफजन्य रोगमें शरीरमें जीत-
लता और सूजन होती है । वातजनित पक्षाघात कष्ट-
साध्य, वातपित्तजनित और वात कफ जनित पक्षाघात
साध्य और क्षयसे उत्पन्न हुआ पक्षाघात रोग
असाध्य है ॥ २०२—२०६ ॥

पक्षाघातकी चिकित्सा ।

पक्षाघातिनमक्षीणं स्निग्धं स्विन्नं
विरेचितम् । वस्तिभिः संप्रयुञ्जीत
क्रमेणाक्षेपकस्य च ॥ २०७ ॥

जो पक्षाघात रोगी क्षीण न हो तो उसको स्निग्ध
और स्विन्न करके विरेचन देवे और क्रमसे आक्षेपक
रोगमें वस्तिकर्म प्रयोग करे ॥ २०७ ॥

माषात्मगुप्तामैरण्डशृतं वाट्यालकं
तथा ॥ हिंगुसैन्धवसंयुक्तं पक्षाघातं
विनाशयेत् ॥ ३०८ ॥ आत्मगुप्ताब-
लामाषविश्वैरण्डशृतं जलम् । ससै-
न्धवं पिवेन्नासारन्ध्रेणाशु व्यपोहति ॥
पक्षाघातं शिरोरोगं नेत्ररोगहरं
परम् ॥ २०९ ॥

उडद, कौष्ठ, अंडकी जड़ और खिरैटी इनके
काथमें हींग और सैधानमक डालकर पीनेसे पक्षा-
घात रोग दूर होता है । फौंड, खिरैटी, उडद, सोंठ
और अंडकी जड़ इनका काथ बनाकर उसमें सैधा-

नमक डाल कर नासिकाके द्वारा पान करनेसे पक्षा-
घात, शिरोरोग और नेत्ररोग दूर होते हैं ॥ २०८ ॥
॥ २०९ ॥

माषादिनस्य ।

माषबलाशुकशिम्बीकनृणरास्त्रोरु-
बूकाश्वगन्धानाम् । काथो नस्यनि-
पीतो रामठलवणान्वितः कोष्णः ॥
॥ २१० ॥ अपहरति पक्षवातं मन्या-
स्तम्भसकर्णनादरुजम् । दुर्जयमर्दित-
वातं सप्ताहाज्जयति चावश्यम् ॥
माषिके हिंगुसिन्धूत्थे जरणाद्यास्तु
शाणिकाः ॥ २११ ॥

उडद, खिरैटी, कौष्ठ, सुगंधितृण, रायसन, अंडकी
जड़, और असगंध इनका काथ बनाकर इसमें हींग
और सैधानमक डालकर सुहाताका नासिका द्वारा
पीवे तो पक्षाघात, मन्यास्तम्भ, कर्णनादरोग, दुर्जय,
अर्दित, वातरोग ये सब सात दिनमें दूर होते हैं ।
इस माषादि नस्यमें हींग, सैधानक और जीरा ये सब
चार २ मासे डालने चाहिये ॥ २१० ॥ २११ ॥

ग्रन्थिकादितैल ।

ग्रन्थिकाऽश्रिकणाशुण्ठीरास्त्रासैन्ध-
वकल्कितम् । माषकाथांबुना तैलं
पक्षाघातं व्यपोहति ॥ २१२ ॥

पापिलामूल, चित्रक, पीपल, सोंठ, रायसन और
सैधानमक इनके कल्कके द्वारा और उरदेके काथके
द्वारा तेलको पकावे । इस तेलको सेवन करनेसे
पक्षाघात रोग दूर होता है ॥ २१२ ॥

माषतैल ।

माषात्मगुप्तातिविषोरुबूकरास्त्राश-
ताह्वालवणैः सुपिष्टैः । चतुर्गुणे मा-
षबलाकषाये तैलं कृतं हन्ति हि
पक्षवातम् ॥ २१३ ॥

उडद, कौष्ठ, अतीस, अंडकी जड़, रायसन,
गतावर और सैधानमक इन सबको कल्कके द्वारा
चौगुने उडद और खिरैटीके काथमें तेलको सिद्ध
करे । इस तेलको सेवन करनेसे पक्षाघातरोग दूर
होता है ॥ २१३ ॥

आदित्यपाकगुग्गुलु ।

पृथक्पलांशा त्रिफला पिप्पली चेति
चूर्णितम् । दशमूलांबुना भाव्यं त्वग्ने-
लार्धपलान्वितम् ॥ २१४ ॥ दत्त्वा प-
लानि पञ्चैव गुग्गुलोर्वटकीकृतः । एवं
मांसरसाभ्यासाद्वातरोगानशेषतः ॥
हन्ति सन्ध्यास्थिमज्जास्थान्वृक्षामि-
न्द्राशनिर्यथा ॥ २१५ ॥ लेह्वद्विगु-
णेनायमालोड्यालोड्यचातपे । द-
शमूलांबुना शोष्यः सप्तवारान्सु-
गुग्गुलुः ॥ २१६ ॥

हरड, वहेडा, आमला यह प्रत्येक चार चार तोले,
पीपल चार तोले, दालचीनी दो तोले, इलायची
२ तोले और उत्तम गूगल २० तोले इन सबको
एकत्र पीसकर दुगुने दशमूलेके काथमे वारम्बार
धूपमे भावना देकर लेहकी तरह आलोडन करके इस-
प्रकार सातवार दशमूलेके काथमे सातवार भावना
देकर धूपमे सुखावे, फिर इसकी गोलिया बनावे ।
इस आदित्यपाक गूगलको मांसरसके साथ सेवन
करनेसे सर्वप्रकारके वातरोग, संधिगत, अरिथगत
और मज्जागत वातरोग दूर हाते हैं ॥२१४-२१६॥

एरण्डादिगुग्गुलु ।

शुक्लैरण्डस्य मूलानि युग्मं सहचर-
स्य च । मुस्ता दुरालभा दीप्या दे-
वाहं कटुका शटी ॥ २१७ ॥ पञ्च-
कोलं बला पथ्या धुद्रे द्वे च पुनर्नवा ।
विषोत्रा वाजिगन्धा च शतावर्था-
टरूषकम् ॥ २१८ ॥ धान्यं छिन्नरुहा
चैव विडङ्गं व्याधियातकम् । गोक्षुरं
वृद्धदारुं च दीप्यको निशयुग्म-
कम् ॥ २१९ ॥ चतुस्त्रिंशतिको भागः
पीतः कौशिकसंयुतः । सर्ववातवि-
कारघ्नः पाचनो दीपनो लघुः ॥
आमवातस्य शोथस्य स्रोतसां क-
फनाशनः ॥ २२० ॥

सुफेद अडकी जड, दोनो प्रकारका पियावासा,
नागरमोथा, धमासा, अजमोद, देवदारु, कुटकी,

कचूर, पंचकोल, खिरैटी, हरड, दोनो प्रकारकी कटेरो,
पुनर्नवा, अतीस, वच, असगंव, शतावर, अडसा,
धनियाँ, गिलोय, वायविडंग, अमलतास, गोखरू,
विधारा, अजमोद और दोनो प्रकारकी हलदी ये सब
समान भाग और चौतीस ३४ भाग गूगल लेवे ।
इन सबकी गोलिये या काथ बनाकर पानेसे सर्व प्रका-
रके वातविकार, आमवातके शोथको और स्रोतके
कफको नष्ट करता है । यह दीपन और पाचन है
॥ २१७ ॥ २१८ ॥ २१९ ॥ २२० ॥

त्रयोदशांगगुग्गुलु ।

आभाश्वगन्धा हबुषा गुडूची शताव-
री गोक्षुरकश्च रास्ना । श्यामा श-
ताह्वा च शटी यवानी सनागरा
चेति समैश्च चूर्णम् ॥ २२१ ॥ देयं
भवेत्कौशिकमत्र तुल्यं देयं तथा स-
र्पिरतोऽर्धभागम् । अक्षार्धमात्रन्तु
ततः प्रयोगात्कृत्वानुपानं सुरयाथ
यूषः ॥ २२२ ॥ मद्येन वा कोष्णज-
लेन वाथ क्षीरेण वा मांसरसेन वा-
पि । कटिग्रहे गृध्रसि बाहुपृष्ठे हनु-
ग्रहे जालुनि पादयुग्मे ॥ २२३ ॥
सन्धिस्थिते चास्थिगते च वाते म-
ज्जागते स्नायुगते च कोष्ठे । रोगा-
ज्येद्वातकफानुबन्धान् वातेरिता-
न्हृद्ग्रहयोनिदोषान् ॥ २२४ ॥ भग्ना-
स्थिविद्वेषु च खञ्जवाते त्रयोदशाङ्गं
प्रवदान्ति सिद्धाः ॥ २२५ ॥

आभा (एक प्रकारका वणिकुद्रव्य अथवा वृ-
रके बीज), असगन्ध, हाऊवेर, गिलोय, शतावर,
गोखरू, रायसन, अनन्तमूल, सौंफ, कचूर, अजत्रा-
यन और सौठ ये प्रत्येक औषधि समान भाग और
सबके बराबर गूगल लेवे और गूगलसे आधा घी
डाले । सबको एकत्र मिलाकर खूब कूटेजव एकजीव
होजाय एक उत्तम चिकने वासनमे भरकर रख देवे ।
इसमेसे प्रतिदिन एक तोला या आधा तोला लेकर
सुरा, थूप, मदिरा, अथवा गरमजलके साथ या दूधके
साथ किम्वा मांसरके साथ सेवन करे तो कटिग्रह,

गृध्रसी, बाहुगत वात, पृष्ठगत वायु, हनुग्रह, जानुगत वात, क्रीष्णगत वायु, पादगत वात, संधिगत वात, अस्थिगत वात, मज्जागत वात, स्नायुगत वायु, क्रीष्णगत, वात, वातकफजानित रोग, हृदयगत और योनिगत वायु, भ्रमास्थि, अस्थिविद्ध और खंजवात दूर होती है ॥ २२१—२२५ ॥

स्वायम्भुवगुग्गुलुवटी ।

व्योषं सत्रन्धिकं पथ्यां चित्रकं जीरकद्वयम् । अजमोदा यवानी च वचाचव्यमवलगुजम् ॥ २२६ ॥ लवणत्रितयं क्षारौ समभागानि कारयेत् । यावन्त्येतानि चूर्णानि तावन्तं गुग्गुलुं शुभम् ॥ २२७ ॥ पादाद्धसम्मितं चात्र योजयेदम्लवेतसम् । गुटिकैषा हिता वाते सामे सन्ध्यस्थिमज्जगे ॥ २२८ ॥ दृढीकरोति भग्नश्च जठरानलदीपनी । पूजिता देवदेवेन कालपाशेन शम्भुना ॥ २२९ ॥

त्रिकुटा, पीपलामूल, हरड, चीता, सुफेद जीरा, काला जीरा, अजमोद, अजवायन, वच, चव्य, वावची, कालानमक, सैधानमक, विरियासंचरनमक, सजीखार, जवाखार ये सब समान भाग लेवे, इसको एकत्र पीसकर चूर्ण बनावे और सब चूर्णके बराबर गुग्गुलु लेवे और गुग्गुलुसे आठवाँ भाग अम्लवेत लेवे। सबको एकत्र मिलाकर गोली बनावे। यह गोली-आमवात, संधिगत वात, अस्थिगतवात, और मज्जागत वातको दूर करती है। दृढी हुई हड्डियोंको जोड़नेवाली और जठराग्निको दीपन करनेवाली है। यह देवोंके देव कालपाशरूपी महादेवसे पूजित है ॥ २२६—२२९ ॥

पत्रलवण और स्नेहलवण ।

गन्धर्वहस्ताटरूषमुस्तकनक्तमालपूतीकाश्वधचित्रकानां पत्राण्याहत्यार्द्राणि लवणेन सहोत्सखले संक्षुद्य स्नेहघटे संक्षिप्यालिप्य गोशकृद्धिर्दाहयेत् । एतत्पत्रलवणमुपादिशति वातरोगिणामिति पत्रलवणम् । एवं स्नुहिकाण्डवार्त्ताकुशिशुलवणानि

संक्षुद्य घटे सर्पिस्तैलवसामज्जानं प्रक्षिप्यावलिप्यावलिप्य पूर्ववद्देहत् । एतत्स्नेहलवणमुपादिशति हि वातरोगेषु ।

“अण्डकी जड, अडूसा, नागरमोथा, दुर्गंध करंज, अमलतास और चीता इन सबको हरे पत्ते लेकर लवणके साथ ओखलीमें कूटकर स्नेहयुक्त घडेमें डालकर उस घडेको गायके गोबरसे चारों ओर खूब लेप करके अग्निमें पुटपाक विधिसे पकावे तो यह पत्रलवण सिद्ध होता है। यह पत्रलवण—वातरोगियोंको अत्यन्त हितकारी है। तथा इसी प्रकार थूहरकी काण्ड, वेगन, सहिजना और लवण इन सबको एकत्र कूट पीसकर इसमें तेल, वसा और मज्जा मिलाकर एक घडेमें भरकर पूर्वोक्त विधिसे गोबर आदिसे घडेको लेप करके अग्निमें पकावे तो यह स्नेहलवण सिद्ध होता है। यह स्नेहलवण—वातरोगोंमें अत्यन्त हितकारक है ॥

तिल्वकाख्यघृत ।

त्रिफला शंखिनी दन्ती विडङ्गं त्रिवृता सुधा । कार्षिकानि पचेत्तानि तिल्वकस्य पलेन च ॥ २३० ॥ दग्नि च त्रिवृताकाथे घृतप्रस्थं चतुर्गुणम् । तिल्वकाख्यं घृतं तत्स्याद्विरेके वातरोगिणाम् ॥ २३१ ॥

त्रिफला, गंखपुष्पी, दंती, वायविडंग, निसोत और थूहर यह प्रत्येक एक एक तोला और लोथ चार तोले लेकर कल्क बनाकर दही और निसोतके चौगुने काथमें एक प्रस्थ घृतको पकावे तो यह तिल्वकाख्य-घृत सिद्ध होता है। यह वातरोगियोंको विरेचनके लिये अत्यन्त हितकारक है ॥ २३० ॥ २३१ ॥

रास्नादिघृत ।

रास्नापुष्कराबिल्वाशिशिशुसैन्धवगोधुरैः । कृष्णां पिष्ट्वा पचेत्सर्पिः कृत्स्नं वातातिनाशनम् ॥ २३२ ॥

रायसन, पोहकरमूल, बेलगिरी, चीता, सहिजना, सैधानमक, गोपसू और पीपल इनके कल्कके द्वारा घृतको सिद्ध करे। यह घृत—वातनाशक है ॥ २३२ ॥

अश्वगन्धादिवृत ।

अश्वगन्धाकवाये च कल्कैः क्षीरं
चतुर्गुणम् । वृतं पक्वन्तु वातघ्नं वृष्यं
मांसविवर्धनम् ॥ २३३ ॥

असगंधके काथ और कल्कके द्वारा चांगुने दूधमें
घीको पकावे । इस घृतको सेवन करनेसे वातरोग
नष्ट होते हैं । वीर्यकी और मांसकी वृद्धि होती
है ॥ २३३ ॥

दशमूलादिवृत ।

द्रीणेऽम्भसः पचेद्भागान्दशमूलांश्चतु-
ष्पलान् । यवकोलकुलित्थानां भागैः
प्रस्थोन्मितैः सह । जीरेण च वृतं
पक्वं तर्पणं पवनात्तिजित् ॥ २३४ ॥

दशमूलकी प्रत्येक औषधि चार २ पल लेकर एक
द्रोण जलमें पकावे । जब पकते २ चौथाई भाग जल
जोप रहजाय तब उतारकर छानलेवे, फिर इस काथमें
जौ, बेर, कुलथीका कल्क एक २ पल और दूध एक २
प्रस्थ डालकर घीको सिद्ध करे यह घृत उत्तम तर्पण
और वातनाशक है ॥ २३४ ॥

छागलादिवृत ।

आजं चर्मं विनिर्मुक्तं त्यक्त्वा शृङ्गखु-
रादिकम् । पञ्चमूलीद्वयश्चैव जलद्रोणे
विपाचयेत् ॥ २३५ ॥ तेन पादावशेषेण
घृतप्रस्थं विपाचयेत् । जीवनीयैः
सयष्ट्याह्वैः क्षीरश्चैव शतावरीम्
॥ २३६ ॥ छागल्याद्यमिदं नाम्ना
सर्ववातविकारनुत् । अर्दिते कर्ण-
शूले च बाधिय्ये मृकमिन्मिणे ॥
॥ २३७ ॥ जडगद्गदपंगूनां खञ्जे गृध्र-
सिकुब्जयोः । अपतानापतन्त्रे च
सर्पिरेतप्रशरयते ॥ २३८ ॥ द्वाविं-
शञ्च पलान्येव देयानि दशमूलतः ।
घृते तैले च योगे च यद्द्रव्यं पुनरु-
च्यते । तज्ज्ञातव्यमिहार्येण भागतो
द्विगुणं भवेत् ॥ २३९ ॥

चर्म, सींग और खुरआदिसे रहित बकरीके ५०
पल मांसको १ द्रोण जलमें पकावे, जब पकते पकते
जल आठ सेर बाकी रहजाय तब उतारकर छानलेवे
इसीप्रकार ५० पल दशमूलको १ द्रोण जलमें पका-
कर चौथाई भाग अर्थात् आठ सेर जल बाकी रखे
फिर दूध १ प्रस्थ, जतावरका रस १ प्रस्थ, गार्गका
घी १ प्रस्थ तथा कल्कके लिये जीवनीय दशक और
मुलैठी ये सब २ प्रस्थ लेवे, पश्चात् विधिपूर्वक घृतको
बनावे । इस घृतको सेवन करनेसे सर्वप्रकारके वात-
रोग, अर्दितवात, कर्णशूल, बधिरता, गूंगापन, भिन्न-
भिन्न वात, जडता, गद्गद वात, पंगुला वात, खंजवात,
गृध्रसी वात, कुब्जक वात, अपतानक वात और
अपतंत्र वातरोग दूर होता है । इसको छागलादिवृत
कहते हैं ॥ २३५—२३९ ॥

बलाशैरीयतैल ।

बलानिष्काथकल्काभ्यां तैलपक्वं
पयोन्वितम् । सर्ववातविकारघ्नमेवं
शैरीयपाचितम् ॥ २४० ॥

खिरैंटीके काथ और कल्कके द्वारा दूध डालकर
तेलको पकावे । इसीप्रकार नीले पियावांसके काथ
और कल्कके द्वारा दूध डालकर तेलको पकावे । ये
दोनों प्रकारके तेल—सर्वप्रकारके वातविकारोको
दूर करते हैं ॥ २४० ॥

महाबलातैल ।

बलाग्रिमन्थमैरण्डबृहतीद्वियगोक्षुर-
म् । बिल्वनागबलाभीरुस्योनाकं
पारिभद्रकम् ॥ २४१ ॥ पाटला सा-
श्वगन्धा च केतकी च प्रसारणी ।
पृष्ठपर्णी स्थिरा चैव बृहतीसहचरद्व-
यम् ॥ २४२ ॥ एषां दशपलान्भागान्-
न्वारिद्रोणद्वये पचेत् । पादशेषं परि-
स्त्राव्य तैलं प्रस्थद्वयं पचेत् ॥ २४३ ॥
कल्कानि जीवनीयानि रास्त्रासैन्ध-
वदारु च । कुष्ठं मांसीवचाग्रन्थिम-
ञ्जिष्ठासरलानि च ॥ २४४ ॥ त्वक्प-
त्रकं वराङ्गञ्च एलामुस्तकवालुकम् ।

एतैः कल्कैः क्षुपिष्ठैश्च पाचयेन्मृदुना-
ग्निना ॥ २४५ ॥ क्षीरञ्च द्विगुणं दद्या-
च्छतावर्या रसस्य च । एतत्तैलवरं
तेषां रोगाणां वातजन्मनाम् ॥ २४६ ॥
नाशयेद्वातरक्तञ्च आमवातं सुदारु-
णम् । गुध्रसीपीठसर्पेषु चाढ्यवाते
सदा हितम् । पाने वस्तीं तथाभ्यङ्गे
नस्ये चैव प्रयोजयेत् ॥ २४७ ॥

खिरैटी, अरणी, अंडकी जड, कटेरी, वडी कटेरी,
गोखरू, बेलगिरी, नागवाला, शतावर, ज्योनापाठा,
नीम, पाढल, असगंध, केतकी, प्रसारन, पृश्निपर्णी-
शालिपर्णी, भटकंदैया और दोनो प्रकारके पीला,
और कालावासा ये प्रत्येक औषधि दश दश पल लेकर
दो द्रोण जलमें पकावे, जब पकते पकते चौथाई
भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे, फिर
इसमें उत्तम तिलका तेल २ प्रस्थ, तथा जीवनीय-
गणकी औषधिये, रायसन, सैधानमक, देवदारु, कूठ,
वालछड, वच, पीपलामूल, मजीठ, धूपसरल, बाल-
चीनी, तेजपात, तज, इलायची, नागरमोथा और
सुगन्धवाला, इन सबका कल्क एक २ पल ढालकर
उत्तम विधिसे मन्द २ आग्निसे पकावे और इसमें तेलसे
दुगुना दूध और शतावरका रस डाले । यह उत्तम
तेल वातरोगियोंको अत्यन्त हितकारक है । तथा वात-
रक्त, दारुण आमवात, गध्रसीवात, पीठसे जो खि-
चडते हैं उनकी पीडा और आढ्यवात रोगमें सदैव
हितकारक है । इसको पान, वस्तिकर्म्म, अभ्यंग
और नस्यकर्म्ममें प्रयोग करना चाहिए ॥ २४१-२४७

द्वितीयमहाबला तैल ।

बलामूलीकषायस्य दशमूलीकृतस्य
च । यवकोलकुलित्थानां काथस्य
पयसस्तथा ॥ २४८ ॥ अष्टावष्टौ शु-
भा भागास्तैलादेकस्तदेकतः । पचे-
दवाप्य मधुरं गणं सैन्धवसंयुतम् ॥
॥ २४९ ॥ तथागुरुं सर्जरसं सरलं
देवदारु च । मञ्जिष्ठां पद्मकं कुष्ठमैलां
कालानुशारिवाम् ॥ २५० ॥ मांसीं
शैलीयकं पत्रं तगरं शारिवां वचाम् ।

१ यहाँ सब तैलोंमें बडी इलायची, डालनी, बाहिये ।

शतावरीमश्वगन्धां शतपुष्पां पुनर्न-
वाम् ॥ २५१ ॥ तत्साधुसिद्धं सौवर्णे
राजते मृण्मयेऽपि वा । प्रक्षिप्य कलशे
सम्यक् तच्च गुप्तं निधापयेत् ॥ २५२ ॥
बलातैलमिदं नाम्ना सर्ववातविकार-
तुत् । यथाबलमतो मात्रां सूति-
कार्यै प्रदापयेत् ॥ २५३ ॥ या च गर्भा-
र्थिनी नारी क्षीणशुक्रश्च यः पुमान् ।
क्षीणे वाते मर्महते मथितेऽभिहते
तथा ॥ २५४ ॥ भग्ने श्रमाभिपन्ने च
सर्वथैवोपयुज्यते । सर्वानाक्षेपकादीं-
श्च वातव्याधीन्व्यपोहति ॥ २५५ ॥
हिक्काश्वासमधीमन्थं गुल्मं कासं
सुदुस्तरम् । षण्मासादुपयुज्येतदन्त्र-
वृद्धिं व्यपोहति ॥ २५६ ॥ प्रत्यग्र-
धातुः पुरुषो भवेच्चास्थिरयौवनः ।
एतद्धि राज्ञा कर्त्तव्यं राजमान्याश्च
ये नराः । सुखिनः सुकुमाराश्च धनि-
नश्चापि मानिनः ॥ २५७ ॥

तिलका तेल आठसेर, खिरैटीका काथ आठ सेर,
दशमूलका काथ आठ सेर, जाँ, बेर और कुलथीका
काथ आठ सेर, दूध आठ सेर, और मधुर काको-
त्यादि गणकी औषधिये, सैधानमक, अगर, राल,
सरलधूप, देवदारु, मजीठ, पद्माख, लालचन्दन,
कूठ, इलायची, सारिवा, बालछड, भूरिछरीला,
तेजपात, तगर, पुष्प, अनुन्तमूल, वच, शतावर,
असगन्ध, सौफ और पुनर्नवा ये प्रत्येक समान भाग
सब दो सेर लेवे सबको मिलाकर अच्छे प्रकारसे
तेलको सिद्ध कर सुवर्ण या चाँदी आदिके कलशमें
भरकर गुप्त रीतिसे रखदेवे । यह बृहद्बला तेल
सर्वप्रकारके वातविकारोंको दूर करता है । प्रसूत
रोगमें इसकी बलानुसार मात्रा देवे । जो गर्भकी
इच्छा करनेवाली स्त्रियें हैं और जो क्षीण वीर्य
पुरुष हैं उनके लिए यह अत्यन्त हितकारी है । तथा
वातसे क्षीणशरीर, मर्महत, मथितवात, भग्न और
श्रमयुक्त वातमें यह अत्यन्त उपकारी है । एव सर्व
प्रकारके आक्षेपकादि वातरोग, हिक्का, श्वास, अधि-

मन्थ, गुल्म दुस्तर खाँसी, और छः महीने तक इस का प्रयोग करनेसे अन्त्रवृद्धि रोग अवश्य दूर होता है। इसको सेवन करनेसे पुरुष उग्र धातु सम्पन्न और स्थिरयौवनयुक्त होता है। राजमान्य पुरुषोंको राजाकी आज्ञासे इसको बनाना चाहिए तथा सुखी सुकुमार अवस्थावाले धनी और मानी पुरुषोंको यह अवश्य बनाना चाहिए ॥ २४८—२५७ ॥

सहचरादितैल ।

साध्यित्वा जलद्रोणे तुलां सहच-
रस्य च । पादशेषे पचेत्तैलं दत्त्वा
क्षीरं चतुर्गुणम् ॥ २५८ ॥ चन्दना
गुरुयष्ट्याहशटीदेवद्रुमं घनम् । सै-
न्धवश्चाजमोदा च काकोल्यौ जीर-
काबुभौ ॥ २५९ ॥ कुष्ठं सौवर्चलं
व्योषं रास्ना भाङ्गीत्रिकण्टकम् । एतै-
रक्षसमैर्भागैः शर्करायाः पलाष्टकम्
॥ २६० ॥ पक्वं प्रयोजयेत्पानाद्भ्यङ्गे
नावनेऽपि वा । ऊर्ध्ववाते ह्यधोवाते
पक्षाघातेऽपवाहुके ॥ २६१ ॥ कर्ण-
वाते शिरःकम्पे शिरोरोगे तथादि-
ते । सर्ववातकृते दोषे कफमेदःकृते-
ऽनिले ॥ २६२ ॥

एक तुला पियावाँसेको लेकर एक द्रोण जलमें पकावे जब पकते २ जल चौथाई भाग शेष रह जाय तब उतारकर छान लेवे फिर इसमें १ सेर तिलका तेल और ४ सेर उत्तम गायका दूध, तथा चन्दन, अगर, मुलैठी, कचूर, देवदारु, नागरमोथा, सैधानमक, अजमोद, काकोली, क्षीरकाकोली, जीरा, कालाजीरा, कूठ, कालानमक, त्रिकुटा, रायसन, भारंगी और गोखरू, इन प्रत्येक औषधियोंका कलक एक २ तोला और उत्तम खांड आठ पल डालकर तेलको सिद्ध करे इसको पान, अभ्यंग नस्य, ऊर्ध्ववात, अधोवात, पक्षाघात, अपवाहुक, कर्णवात, शिरःकम्प, शिरोरोग, अर्दितरोग, सर्वप्रकारके वातरोग और कफ और मेद जनित वातरोग इन सबमें प्रयोग करे ॥ २५८-२६२

महासहचरादितैल ।

कृत्स्नां सहचरादेकां कृत्वा जर्जरितां
तुलाम् । काश्मरीपाटलाविल्वं तु-

लात्रिभिरथापरम् ॥ २६३ ॥ अश्व-
गन्धां बलां तडुन्मूलं शातावरं व-
चाम् । चतुर्द्रोणे विपक्तव्यं चतुर्भा-
गावशेषितम् ॥ २६४ ॥ शताह्वाहिं-
गुयष्ट्याह्वदेवदारुसचित्रकम् । त्वग्ने-
ला कृमिहन्ता च रास्नातगरसैन्धवाः
॥ २६५ ॥ महासहचरं तैलं वातश्ले-
ष्महरं परम् । पाने नस्ये तथाभ्यङ्गे
वस्तिकर्मणि शस्यते ॥ २६६ ॥
अशीतिं वातजात्रोगांश्चत्वारिंशच्च
पैत्तिकान् । विंशतिं श्लेष्मिकांश्चैव
पानादेवापकर्षति ॥ २६७ ॥

उत्तम पुराना पियावाँसा, कुम्भेर, पाढल, बेलगिरी, असगंध, खिरैटी, शतावर और वच यह प्रत्येक ओषधि एक एक तुला प्रमाण लेकर कूट लेवे, सबको चार द्रोण जलमें पकावे। जब पकते पकते चौथाई भाग जल शेष रह जाय तब उतारकर छान लेवे, फिर इसमें सौफ, हींग, मुलैठी, देवदारु, चीता, दालचीनी, इलायची, वायविडंग, रायसन, तगर और सैधानमक इन सब औषधियोंका एक २ पल कलक डालकर ४ सेर तेलको सिद्ध करे; यह महासहचरादि तैल—वातकफको नष्ट करता है। तथा पान, नस्य, अभ्यंग और वस्तिकर्ममें हितकारी है। इसको पान करनेसे-अस्सी प्रकारके वातरोग चालीसे प्रकारके पित्तरोग और बीस प्रकारके कफरोग दूर होते हैं ॥ २६३ ॥ २६७ ॥

विष्णुप्राक्त अंगवरतैल ।

शालिपर्णी पृष्ठपर्णी बला च बहुपु-
त्रिका । एरण्डस्य च मूलानि बृहत्या
पूतिकस्य च ॥ २६८ ॥ गवेधुकस्य
मूलानि तथा सहचरस्य च । एतेषां
पलिक्वान्भागांस्तलप्रस्थं विपाचयेत् ॥
॥ २६९ ॥ आजश्ववाथ गव्यश्च क्षीरं
दद्याच्चतुर्गुणम् । अस्य पक्वस्य तैलस्य
शृणु वीर्यमतःपरम् ॥ २७० ॥ अ-
श्वानां वातभ्रानां कुञ्जराणां तथैव

च । तैलमेतन्नयोक्तव्यं सर्ववातनि-
वारणम् ॥ २७१ ॥ आयुष्मांश्च नरः
पीत्वा निश्चयेन दृढो भवेत् । हृच्छूलं
पार्श्वशूलञ्च तथैवाद्धञ्च भेदकम् ॥
कामलापाण्डुरोगञ्च शर्करामशमरीं
हरेत् ॥ २७२ ॥ क्षीणेन्द्रिया नरा ये
च जराया जर्जरीकृताः । येषां चापि
क्षयो व्याधिरन्त्रवृद्धिश्च दारुणा ॥ २७३
अर्दितं गलगण्डञ्च वातशोणितमेव
च । स्त्रियो या न प्रसूयन्ते तासाञ्चैव
प्रयोजयेत् ॥ २७४ ॥ गर्भमश्वतरी
विन्द्यान्न च मृत्युवशं नयेत् । एतद-
ङ्गवरं तैलं विष्णुना परिकीर्तितम् २७५

शालिपर्णी, पृश्निपर्णी, खिरैटी, शतावर, अंडकी
जड, बडी कटेरीकी जड, दुर्गधकरंजकी जड, गरहेडुकी
जड और पियावांसेकी जड ये प्रत्येक औषधि एक २
पल लेकर कल्क बनावे, तिलका तेल १ प्रस्थ और
वकरी, या गायका दूध चौगुना लेवे, सबको एकत्र
मिलाकर उत्तम विधिसे तेलको पकावे । अब इस
तेलके प्रभाव सुनो। जो घोड़े या हाथी अथवा मनुष्य
वातसे पीडित हैं उन सबको यह तेल सेवन कराना
चाहिये । इसको पीनेसे मनुष्य दीर्घायु और दृढ होते
हैं । तथा यह तेल—हृदयके शूल, पसलियोंका शूल,
अर्द्धाभेदक, कामला, पाण्डुरोग, शर्करा, अशमरी,
जो मनुष्य क्षीणेन्द्रिय है, जरासे जर्जर होगये है,
जो क्षय रोगसे पीडित है तथा जिनके दारुण अन्त्र-
वृद्धि है, एव अर्दितरोग, गलगण्डरोग, वातरक्त और
जो स्त्रिये वंध्या है उनको यह अवश्य सेवन कराना
चाहिये । इसके प्रभावसे अश्वतरी (खिचरी) भी
गर्भको धारण कर लेती है और इसको सेवन करने-
वाला मृत्युको प्राप्त नहीं होता। यह अगवर तैल विष्णु
भगवान्ने कहा है ॥ २६८—२७५ ॥

महाकल्याणकतैल ।

बलाश्वगन्धामरदारुस्रा स्थिरा
वचा नागबला सलोहम् । आरुष्करं
चन्दनपुष्कराख्यं नतं शुद्धचीलवणो-
त्तमं च ॥ २७६ ॥ काकोलिमेदे मधुकं

विदारी सचित्रकं गुग्गुलुजरिकञ्च ।
द्राक्षाऽगुरुर्नागरधान्यकञ्च एतानि
सर्वाणि समानि कृत्वा ॥ २७७ ॥
कल्कैः कषायैर्विधिना प्रयुक्तैस्तैलं
पचेत्तोयचतुर्तुणञ्च । आम्लारणालं
दधिदुग्धयुक्तं दत्त्वा समांसं विधिव-
द्विधिज्ञः ॥ २७८ ॥ तत्रावनाभ्यञ्जन-
नस्यपानैर्निहन्ति घोरानचिरेण रो-
गान् । कल्याणकं नाम महञ्च तैलं
स्तम्भं जयेत्कार्मुकनामधेयम् ॥ २७९ ॥
दण्डापतानार्दितवेपमानाः सुपि-
ण्डिताः पिण्डितकुब्जखजाः । पुन-
र्थुवानोऽतिमनोऽभिरामा भवन्ति ते
तैलवरेण सर्वे ॥ २८० ॥ अश्वोऽपि
भयः सकृदेव दन्ती भयो भवेन्मारु-
तविक्रमश्च । वन्ध्यापि पुत्रं लभते व-
राभं दीघार्थुषं सर्वगुणैरुपेतम् ॥ २८१ ॥
अप्सु प्रवाताहतचञ्चलोर्मिर्महोदाधि-
लङ्घयतीह वेलाम् । सवानजा एव
हि तैलराजं रोगा न वै लङ्घयितुं
समर्थाः ॥ २८२ ॥

खिरैटी, असगन्ध, देवदारु, रायसन, शालिपर्णी,
वच, नागबला, लोहेका चूर्ण, भिलावा, लाल चन्दन,
पोहकरमूल, तगर, गिलोय, सैधानमक, काकोली
मेदा, महामेदा, मुलैठी, विदारीकंद, चीता, गूगल,
जीरा, मुनक्का, अगर, सोठ और धनियाँ ये सब
समानभाग ले । इनके कल्क और काथके द्वारा
चौगुने जल, खट्टी काँजी, दही और दूधमें विधि-
पूर्वक तेलको पकावे । इस तेलको अभ्यञ्जन, नस्य
और पान कर्ममें प्रयोग करनेसे बड़े २ भयंकर रोग
बहुत शीघ्र दूर हो जाते हैं । यह तेल—दण्डापतानक
रोग, अर्दितरोग, कंपवात, पिण्डितवात, कुब्जता और
खंजताको अवश्य नष्ट कर देता है । इस तेलके प्रभा-
वसे मनुष्य फिर युवाके समान होकर स्त्रियोंको पर-
मप्रिय होता है । जिन घोड़े और हाथियोंके अग-
वायुसे दृढ गये हैं वे घोड़े और हाथी वायुके पराक्र-
मके समान बलवान् होजाते हैं । इस तेलको सेवन

करनेसे बंध्या स्त्रियेभी सुन्दर कांतिवाली, दीर्घायु और सर्वगुणसम्पन्न पुत्रोको उत्पन्न करती है। जिन मनुष्योंका शरीर वायुसे सुन्न होगया है वे बहुत शीघ्र चंचल होकर जलोमे लहरोंको और समुद्र लङ्घनेमें समर्थ हो जाते हैं। ऐसा जगत्में कोई भी वातरोग नहीं है जो इस तेलसे आरोग्य नहीं होता हो ॥ २७६-२८२ ॥

स्वलपनारायण तैल।

शतावरी चांशुमती पृश्निपर्णीशटी-
बलाः। एण्डस्य च मूलानि बृह-
त्याः पूतिकस्य च ॥ २८३ ॥ गवेधु-
कस्य मूलानि तथा सहचरस्य च।
एषां दशपलान्भागान्मूलाद्रोणे विपा-
चयेत् ॥ २८४ ॥ पादावशेषे पूते च
गर्भे चैनं समाचरेत्। पुनर्नवावचा-
दारुशताह्वाचन्दनागुरु ॥ २८५ ॥
शैलेयं तगरं कुष्ठमेलामांसीस्थिरा-
बलाः। अश्वाहा सैन्धवं रास्ना पला-
द्धानि च पेषयेत् ॥ २८६ ॥ गव्या-
जपयसोःप्रस्थौ द्वौ द्वावत्र प्रदापयेत्।
शतावरीर्यसप्रस्थं तैलप्रस्थं विपा-
चयेत् ॥ २८७ ॥ अस्य तैलस्य सि-
द्धस्य शृणु वीर्यमतः फलम्। अश्वा-
नां वातभग्नानां कुञ्जराणां नृणां त-
था ॥ २८८ ॥ तैलमेतत्प्रयोक्तव्यं सर्व-
वातविकारनुत्। आयुष्मांश्च नरः
पीत्वा निश्चयेन पुमान्भवत् ॥ २८९ ॥
गर्भमश्वतरि विन्द्यात्किं पुनर्मानुषी
तथा। हृच्छूलं पार्श्वशूलञ्च तथैवा-
र्धावभेदकम् ॥ २९० ॥ अपचीं ग-
ण्डमालाञ्च वातरक्तं हनुग्रहम्। का-
मलां पांडुरोगञ्च अश्मरीञ्चापि ना-
शयेत् ॥ २९१ ॥ तैलमेतद्गवना वि-
ष्णुना परिकीर्तितम्। नारायणमि-
ति ख्यातं वातान्तकरणं तथा २९२ ॥

काथके लिये शतावर, गालिपर्णी, पृश्निपर्णी, कचूर,
खिरैटी, अण्डकी जड, बृहती, पूतिकरंजकी जड,
गरेहडुयेकी जड, पियावसैकी जड; ये प्रत्येक दश
दश पल जल द्रोण, जेप चतुर्थांश, कल्कके लिये पुन-
र्नवा, वच, देवदारु, सौफ, चन्दन, अगर, भूरिलरीला,
तगर, कूट, इलायची, बालछड, सारिवन, विरैटी,
असगन्ध, सैधानमक और रायसन ये प्रत्येक दोस्तोले
लेकर पीस ले, गायका दूध २ प्रस्थ, चकरीका दूध २ प्रस्थ,
शतावरका रस २ प्रस्थ, तिलका तेल २ प्रस्थ सबको
मिलाकर यथाविधि तेलको सिद्ध करे। यह नारायण
तेल—वातरोगसे पीडित घोडे, हाथी और मनु-
ष्योंके सर्वप्रकारके वातरोगोंको दूर करता है। इसको
पीनेसे मनुष्य दीर्घायु और पुरुषत्वकां प्राप्त होते हैं।
इसको सेवन करनेसे स्त्रियोंकोभी गर्भ रहजाता
है, फिर स्त्रियोंका तो कहनाही क्या? यह तेल
हृदयशूल, पार्श्वशूल, अर्द्धावभेदक, अपची, गण्डमाला,
वातरक्त, हनुग्रह, कामला, पाण्डुरोग और पथरीको
दूर करता है। यह नारायण तेल—विष्णु भगवान्ने
निर्माण किया है और सर्वप्रकारके वातरोगोंको दूर
करता है ॥ २८३-२९२ ॥

मध्यमनारायणतैल।

बिल्वोऽग्निमन्थः श्योनाकः पाटला
पारिभद्रकः। प्रसारण्यश्वगन्धा च
बृहतीकण्टकारिका ॥ २९३ ॥ बला
चातिबला चैव श्वदंष्ट्रा सपुनर्नवा।
एषां दशपलान्भागान्श्वतुद्रोणेऽम्भसः
पचेत् ॥ २९४ ॥ पादशेषं परिस्त्राव्य
व्य तैलप्रस्थं पचेच्छनैः। शतपुष्पा दे-
वदारु मांसी शैलेयकं वचा। चन्दनं
तगरं कुष्ठमेलापणीचतुष्टयम् ॥ २९५ ॥
रास्ना तुरगगन्धा च सैधवश्च पुनर्नवा
एषां द्विपलिकान्भागान्पेषयित्वा वि-
निःक्षिपेत् ॥ २९६ ॥ शतावररिसञ्चैव
तैलतुल्यं प्रदापयेत्। आजं वा यदि
वा गव्यं क्षीरं दत्त्वा चतुर्गुणम् ॥ २९७ ॥
पाने बस्तौ तथाऽभ्यंगे भोज्ये नस्ये
प्रदापयेत्। अश्वो वा वातसम्भ्रमो

गजो वा यदि वा नरः ॥ २९८ ॥ पं-
गुलः पीठसर्पी च तैलेनानेन सिद्धय-
ति । अधोभागे च ये वाताः शिरो-
मध्यगताश्च ये ॥ २९९ ॥ मन्यास्तं-
भे हनुस्तंभे दन्तरोगे गलग्रहे । यस्य
शुष्यति चैकाङ्गं गतिर्यस्य च विह्व-
ला ॥ ३०० ॥ क्षीणेन्द्रिया नष्टशुक्रा
ज्वरक्षीणाश्च ये नराः । बधिरा ल-
ह्वजिह्वाश्च मन्दमेधस एव वा ॥ ३०१ ॥
मन्दप्रजा च या नारी या च गर्भं
न विन्दति । वातात्तौ वृषणौ येषा-
मन्त्रवृद्धिश्च दारुणा । एतत्तैलवरं तेषां
नाम्ना नारायणं स्मृतम् ॥ ३०२ ॥

बेलगिरी, अरणी, श्यानापाठा, पाढल, नीम,
प्रसारणी, असगन्ध, बडी कटेरी, कटेरी, खिरैटी,
कंधी, गोखरू और पुनर्नवा ये प्रत्येक औषधि दश २
पल लेकर ४ द्रोण जलभे पकावे जब पकते २ चौथाई
भाग जल शेष रह जाय तब उतार कर छान लेवे,
फिर इसमें तिलका तेल १ प्रस्थ, सौफ, देवदारू,
वालछड, भूरिछरीला, वच, चन्दन, तगर, कूठ, इला-
यची, शालिपर्णी, पृथ्वीपर्णी, मुद्गपर्णी, मापपर्णी,
रायसन, असगन्ध, सैधानमक और पुनर्नवा ये
प्रत्येक औषधि दो दो पल लेकर पिसकर मिला देवे,
शतावरका रस १ सेर तथा बकरी या गायका दूध
४ प्रस्थ, इन सबको यथाविधिसे एकत्र मिलाकर
तेलको सिद्ध करे । इसको पान, वस्तिकर्म, अभ्यंग,
भोजन और नस्य कर्ममें प्रयोग करे । यह तेल
वातसे पीडित घोडे, हाथी और मनुष्योको अत्यन्त
हितकारी है । जो मनुष्य पगु है अथवा जो पीठसे
खिचडते है उनके लिये यह तेल विशेष उपकारी है,
यह तेल-अधोगत वायु, गिरोमध्यगतवायु, मन्यास्तम्भ,
हनुस्तम्भ, दन्तरोग, गलग्रह तथा जिसका १ अंग
सूख गया है, जिसकी गति विह्वल होगई है, जो क्षीणे-
न्द्रिय है जिनका वीर्य नष्ट होगया है, जो ज्वरसे क्षीण
होगये है, एवं बधिर, अल जिह्वावाले, मन्दवृद्धि
मनुष्य, जो वी अल्प सन्तानको उत्पन्न करती है,
अथवा जो विलकुल गर्भको धारण नहीं करती, जिन-
के अण्डकोष घातकी वेदनासे पीडित है और जिन

के दारुण अन्त्रवृद्धि रोग है उनके लिये इस तेलको
सेवन अत्युत्तम है । इसको मध्यमनारायण तैल
कहते है ॥ २९३—३०२ ॥

महानारायणतैल ।

बिल्वाश्वगंधाबृहतीश्वदंष्ट्राश्यानाक-
वाद्यालकपारिभद्राः । क्षुद्राकटिह्ला-
तिबलाश्लिषन्थं प्रत्येकमेकं प्रवदन्ति
तज्ज्ञाः ॥ ३०३ ॥ सपादप्रस्थं विधिनो-
द्धृतानां क्षिप्त्वा सुयत्नात्सरणीयुत्ता-
नाम् । मूलं विदध्यादथ पाटलीनां
द्रोणैरपामष्टभिरेव पक्त्वा ॥ ३०४ ॥
पादावशेषेण रसेन तेन तैलाढकाभ्यां
सममेव दुग्धम् । आजं विदध्यादथवा-
ऽपि गव्यं दद्याद्रसं वापि शतावरी-
णाम् ॥ ३०५ ॥ तैलेन तुल्यं पुनरेव तत्र
रास्त्राश्वगन्धाऽमरदारुकुष्ठम् । पर्णी-
चतुष्कागुरुकेसराणि सिन्धूत्थमांसी
रजनीद्वयञ्च ॥ ३०६ ॥ शैलेयकं चन्दन-
पुष्कराणि एला सयष्टीतगराब्दप-
त्रम् । भृङ्गाष्टवर्गाम्बुवचापलाशं पृ-
थ्वी च थोणैयकचोरकाख्यम् ॥ ३०७ ॥
एतैः समस्तैर्द्विपलप्रमाणैः कर्पूर-
काशमीरमृगाण्डजानाम् । दद्यात्सुग-
न्धाय वदन्ति केचित्प्रस्वेददौर्गन्ध्य-
विनाशनाय ॥ ३०८ ॥ चूर्णीकृतानां
द्विपलप्रमाणैरालोह्य सर्वं विधिना
विपक्वम् । नारायणं नाम महच्च तैलं
सर्वैः प्रकारैर्विधिवत्प्रयोज्यम् ॥ ३०९ ॥
अश्वभपुंसां पवनादितानां ये पङ्कवः
पीठविसर्पिणश्च । एकाङ्गशुष्कादित-
वेपमाना बाधिर्यशुक्रक्षयपीडिताश्च
॥ ३१० ॥ मन्याहनुस्तम्भगलग्रहार्ता-
स्त्यक्तामयास्ते बलवर्णयुक्ताः । संसे-
व्य तैलं सहसा भवन्ति बन्ध्यापि
नारी लभते सुपुत्रम् । देवोपमं सर्व-

गुणोपपन्नं सुमेधसं श्रीविजयान्वि-
 तश्च ॥ ३११ ॥ शाखाश्रिते कोष्ठगते
 च वाते वृद्धौ विधेयं पवनार्दिताना-
 म् । जिह्वाऽनिले दन्तगते च शूले वा-
 तापहं तैलवरं प्रसिद्धम् ॥ ३१२ ॥
 उन्मादकुब्जज्वरकर्षितानां नातः परं
 तैलवरं प्रदिष्टम् ॥ वाताभये वैद्यवरेण
 योज्यं वायुप्रकर्षं प्रमदाप्रियत्वम् ॥
 ॥ ३१३ ॥ प्राप्नोति लक्ष्मीं विजयश्च नि-
 त्यं रक्षांसि दुष्टानि निहन्ति नूनम् ।
 तैलोपजीवी जरया विमुक्तो जीवेत्त-
 रो वर्षशतानि पञ्च ॥ ३१४ ॥ देवासुरे
 युद्धवरे समीक्ष्य स्नायवस्थिभग्नानसुरैः
 सुरांश्च । नारायणोक्तं सुरबृंहणार्थं
 नारायणं तेन वदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ३१५ ॥

बेलगिरी, असगन्ध, वडी कटेरी, गोखरू, ज्योनापाठा,
 खिरैटी, नीम, कटेरी, पुनर्नवा, कंधी, अरणी, प्रसारणी
 और पाढलकी जड, ये प्रत्येक औषधि अस्सी २ तोले
 लेकर आठ द्रोण जलमे पकावे । जब पकोतरे दो द्रोण
 जल शेष रहजाय तब उतार कर छान लेवे पश्चात्
 इस काढेमे एक आढक (५१२ तोले) परिमाण उत्तम
 तिलका तेल, एक आढक परिमाण गायका या बकरीका
 दूध, जतावरका रस एक आढक, तथा रायसन,
 असगन्ध, देवदारू, कूठ, जालिपर्णी, पूंश्रपर्णी, सुद्रपर्णी,
 मापपर्णी, अगर, नागकेजर, सैधानमक, बालडड,
 हल्दी, दारुहल्दी, भूरिलरीला, चन्दन, पोहकरमूल,
 इलायची, मुलैठी, तगर, नगरमोथा, तेजपात, भोंगरा,
 अष्टवर्गीकी आठों औषधिये, सुगन्धवाला, वच, कचूर,
 सफेद पुनर्नवा थुनेर और चोरक द्रव्य ये प्रत्येक
 औषधि आठ २ तोले लेकर पीसकर मिला देवे,
 फिर तैलको विधिपूर्वक पकावे । इस तैलको महाना-
 रावण तैल कहते है । पश्चात् कितनेक वैद्य इसमे
 कपूर, केशर और कस्तूरी ये प्रत्येक दो दो पल
 सुगन्धिके लिये और कितनेक वैद्य प्रसंघ और दुर्ग-
 धको दूर करनेके लिये डालते है । इस महानारायण
 तैलको विधिपूर्वक सर्न प्रकारके वातरोगोंसे प्रयोग
 करना चाहिये । वातमे पीडित घोडे हाथी और जां
 मनुष्य पगु है तथा पीठसे खिचडते है उनके लिये

यह अत्यन्त उपयोगी है । एकागजेप, आर्दन, कंप,
 वविरता, शुक्रक्षयमे पीडित, मन्यान्तम्भ, हनुरत्तम्भ
 और गलग्रह रोगवाले मनुष्योंकी उक्तपीटाओंको दूर
 करके बल और वर्णयुक्त करता है । इस तैलको
 विधिपूर्वक बराबर सेवन करनेसे वैद्या क्रिय भी,
 बहुत शीघ्र देवताके रामान सर्वगुणसम्पन्न, उत्तम
 बुद्धिवाले विजय और लक्ष्मीको वारणकरनेवाले पुत्र-
 को उत्पन्न करती है । यह तैल-शाखागत वात, कोष्ठ
 गत वात, वातदृष्टि, जिह्वागत वात, वनगत शूल और
 समस्त वातरोगोंको दूर करता है, उन्माद, कुब्जवात
 और ज्वरसे व्याकुल मनुष्योंके लिये इस तैलसे
 उत्तम अन्य औषधि नहीं है । वातरोगामे बुद्धिमान्
 वैद्यको चाहिये कि इसी तैलका प्रयोग करे । यह तैल
 वायुको शमन करनेवाला और भ्रियोंको प्रिय है जो
 मनुष्य इस तैलका नित्य भवन करता है उसके नित्य
 लक्ष्मी और विजयकी प्राप्ति होती है, दुष्टराक्षसोंका
 नाश होता है, तथा वह मनुष्यजरारहित होकर पाचसौ
 वर्षतक जीता रहता है । पूर्वकालमें देवता और असु-
 रोंका परस्पर युद्ध हुआ था, उस समय असुरोंने देव-
 ताओंकी हड्डी, स्नायु और सधि आदि तांडडाली थीं
 तब श्रीनारायणने देवताओंकी पुष्टिके अर्थ
 तिजनामसे प्रसिद्ध नारायणतैल निर्माण किया
 है ॥ ३०३—३१५ ॥

माषतैल ।

माषप्रस्थं समादाय पचेत्सम्यक् ज-
 लाढके । पादशेषे रसे तस्मिन्क्षीरं द-
 त्वा चतुर्गुणम् ॥ ३१६ ॥ प्रस्थश्च तिल-
 तैलस्य कल्कं दत्त्वाक्षसम्मितम् । जी-
 वनीयानि यान्यष्टौ शतपुष्पा ससैन्ध-
 वा ॥ ३१७ ॥ रास्त्राऽऽत्मगुप्ता कटुका
 भधुकं कुष्ठमेव च । पक्षाघातादिते
 वाते कर्णशूले च दारुणे ॥ ३१८ ॥
 मन्दश्रुतौ चाश्रवणे तिमिरे च त्रि-
 दोषजे । हस्तकंपे शिरःकम्पे विश्वा-
 च्यामपबाहुके ॥ ३१९ ॥ कलायखञ्जे
 शस्तं स्यात्पानाम्भ्यञ्जनवस्तिभिः ।
 माषतैलामिदं श्रेष्ठमूर्ध्वजत्रुगदापहम् ।

“ यवमाषतिलानाञ्च प्रस्थः षोडश-
भिः पलैः ” ॥ ३२० ॥

उत्तम उडद १६ पल लेकर एक आढक जलमें पकावे । जब पकते पकते जल चौथाई भाग बाकी रह जाय तब उतारकर छान लेवे, फिर इस काथमे ४ प्रस्थ गायका दूध और एक १ प्रस्थ उत्तम तिलका तेल. जीवनीयगणकी औपधियें—जीवक, ऋपभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, ऋद्धि, वृद्धि, सौंफ, सैधानमक, रायसन, कौंछ, कुटकी, मुलैठी और कूठ प्रत्येक औषधिका एक एक तोला करक डालकर विधिपूर्वक इम तेलको पकावे । यह तेल—पक्षाघात, अर्दितवात, दारुण कर्णशूल, कम सुनता, बहरापन, त्रिदोषज तिमिररोग, हस्तकंप, शिरःकम्प, विश्वाची, अपवाहुक और कलायखंज आदि रोगांमे पान, अभ्यंजन और वस्तिकर्ममें सर्वप्रकारके प्रयोग करना चाहिये । यह उत्तम माष-तैल—सर्व प्रकारके ऊर्ध्वजत्रुरोगोको दूर करता है ॥ (जो उडद और तिलोका प्रस्थ सोलह पलोका होता है) ॥ ३१६-३२० ॥

बृहन्माषादितैल ।

माषकाथे बलाकाथे रास्नाया दशमूलजे । यवकोलकुलित्यानां छागमांसरसे पृथक् ॥ ३२१ ॥ प्रस्थे तैलस्य च प्रस्थं क्षीरं दत्त्वा चतुर्गुणम् । रास्नात्मगुप्तासिन्धूत्थशताहैरण्डमुस्तकैः ३२२ जीवनीयबलाव्योषैः पचेदक्षसमैः पृथक् । हस्तकम्पे शिरःकम्पे बाहुशोषेऽपवाहुके ॥ ३२३ ॥ बाधिये कर्णशूले च कर्णनादे च दारुणे । विश्वाच्यामर्दिते कुब्जे गृध्रस्यामपतानके ॥ ३२४ ॥ वस्त्यभ्यञ्जनपानेषु नावनेषु प्रयोजयेत् । माषतैलमिदं श्रेष्ठमूर्ध्वजत्रुगदापहम् ॥ ३२५ ॥

उडदोका काथ, खिरैटीका काथ, रास्नाका काथ, दश मूलका काथ, जौ वेर और कुलथीका काथ तथा बकरीका मांसरस इनके द्वारा एक प्रस्थ उत्तम तेल, चार प्रस्थ दूध, एवं रायसन, कौंछ, सैधानमक,

सौफ, अंडकी जड, नागरमोथा, जीवनीयगणकी, आपधिये, खिरैटी और त्रिकुटा प्रत्येक औषधिका कल्क एक एक तोला डालकर उत्तम विधिसे तेलको सिद्ध करे । यह बृहन्माषादि तैल—हस्तकंप, शिरःकंप, बाहुशोष, अपवाहुक रोग, बधिरता, कर्णशूल, दारुण कर्णनाद, विश्वाची, अर्दितवात, कुब्जवात, गृध्रसी और अपतानक रोगमें इसका वस्ति, अभ्यंजन, पान और नस्यके द्वारा प्रयोग करे । यह उत्तम माषतैल—समस्त ऊर्ध्वजत्रुरोगोंको दूर करता है ३२१—३२५ ॥

महामाषादितैल ।

माषस्यार्द्धाढकं देवं तुलार्द्धं दशमूलतः । छागमांसपलं त्रिंशज्जलद्रोणे विपाचयेत् ॥ ३२६ ॥ चतुर्भागावशेषन्तु कषायमवतारयेत् । प्रस्थञ्च तिलतैलस्य पयो दत्त्वा चतुर्गुणम् ॥ ३२७ ॥ जीवनीयानि मंजिष्ठा च व्यञ्जिककटफलम् । सव्योषं पिप्पलीमूलं रास्नामलकगोक्षुरम् ॥ ३२८ ॥ आत्मगुप्ता तथैरण्डः शताह्वालवणत्रयम् । अश्वगन्धामृताभीरुयवानीसवचाशटी ॥ ३२९ ॥ एतैरक्षसमैः कल्कैः साधयेन्मृदुनाग्निना । पक्षवातादिभिः सर्वैर्दिते च हनुप्रहे ॥ ३३० ॥ कर्णशूले च बाधिये तिमिरे च त्रिदोषजे । पाणिपादशिरोश्रीवा श्रवणे मन्द एव च ॥ ३३१ ॥ कलायखञ्जे पङ्गौ च गृध्रस्यामपवाहुके । पाने वस्तौ तथाभ्यङ्गे नस्ये कर्णाक्षिपूरणे । एततैलं प्रशंसन्ति सर्ववातविकारनुत् ॥ ३३२ ॥

उत्तम उडद आधे आढक परिमाण, दशमूलकी औषधिये ५ पल, बकरीका मांस तीस पल इन सबको अलग अलग कपडेकी पोदलीमे बांधकर सबको एकत्रकर एक द्रोण जलमे पकावे । जब पकते पकते जल चौथाई भाग बाकी रह जाय तब

उतारकर छान लेवे, फिर इसमें तिलका तेल १ प्रस्थ, दूध ४ प्रस्थ, जीवनीय गगकी औपधियं, मर्जाठ, चव्य, चीता, कायफर, त्रिकुटा, पीपलामूल, रायसन, आमले, गोखरू, कौछ, अडकी जड, रौफ, कालानमक, सैधानमक, विरियाराचरनमक, असगंध, गिलोय, गतावर, अजवायन, वच और कचूर ये प्रत्येक औपधि एक एक तोला लेकर कलक कर उत्तमविधिसे तेलको सिद्ध करे । यह तेल सर्वप्रकारके पक्षवातरोग, अर्दित, हनुग्रह, कर्णशूल, वधिरता, त्रिदोषज, तिमर रोग, हाथ, पाव, गिर और गर्दनकी पीडा, कमसु-नना, कलायखंज, पंगुता, गृध्रसी और अपत्राहुक इन सब रोगोमे पान, वन्ति, अभ्यंग, नस्य, कर्ण और नेत्रोंके पूरण करनेमे यह तेल बहुत उत्तम है । यह तेल—सर्वप्रकारके वातविकारोको दूर करनेकी उत्तम औपधि है ॥ ३२६-३३२ ॥

सामिषमहामाषतैल ।

माषद्रोणं समावाप्य चाश्वगन्धां श-
तावरीम् । प्रसारणी सातिबलां
तथा गंधर्वहस्तकम् ॥ ३३३ ॥ सह-
चरस्य मूलन्तु केतकीनां तथैव च ।
आप्तगुप्तां च वाट्यालं दशमूलमथा-
पि वा ॥ ३३४ ॥ एषां दशपलान्भा-
गान्कौक्कुटं मांसमेव च । चतुःषष्टि-
पलं दत्त्वा जलसूर्पे विपाचयेत् ३३५ ॥
तेन पादावशेषेण शास्त्रविन्मृदुना-
ग्निना । क्षीरद्रोणसमायुक्तं तैलप्रस्थं
विपाचयेत् ॥ ३३६ ॥ अतः कल्का-
निमान्दद्यात्पलिकाञ्जुक्षणपेषितान् ।
जीवनीयानि यान्यष्टौ यष्टीचन्दन-
सैन्धवम् ॥ ३३७ ॥ देवदारुबलाकुष्ठं
रासैलाशुकाशिम्बिका । मांसीवचा
शतपुष्पा विदारी च प्रसारिणी ॥
॥ ३३८ ॥ वृद्धदारुकमूलञ्च विडङ्गं
सरलं तथा । शतावर्यश्वगन्धा च
शठी व्यूषणमेव च ॥ ३३९ ॥ अम्ल-
वेतसदावीं च शाणं देयं पृथक्पृथक्

॥ ३४० ॥ पाने वस्ती तथाऽभ्यङ्गे नस्ये
कर्णाक्षिपूरणे । अर्दिते कर्णशूले च
शिरोरोगे हनुग्रहे ॥ मुखरोगेषु सर्वेषु
मन्यास्तम्भेऽपवाहुके ॥ ३४१ ॥ कर्ण-
स्त्रावे च वाधिये निमिरे च त्रिदो-
षजे । हृद्रोगे चैव गृध्रस्यामामवाते
कटिग्रहे ॥ ३४२ ॥ कलायखंजे वि-
श्वाच्यां हितमेतद्विशेषतः । जंघोरु-
पादपृष्ठे च पार्श्वे शूलमर्त्तव च ॥ ३४३ ॥
अन्त्रवृद्ध्यण्डवृद्धिञ्च वातरक्तं मुदा-
रुणम् । पीनसं कुञ्जपंगू वा चाशी-
तिं वातजान्गदान् ॥ ३४४ ॥ वली-
पलितखालित्यान्केशानां पतनं हरे-
त् । बलमांसप्रदञ्चैव शुक्रवृद्धिकरं
परम् ॥ ३४५ ॥ अपत्यजननं श्रेष्ठं
गर्भिण्याः परमं हितम् । हस्त्यश्वो-
ष्टादिव्यायामैर्भ्रष्टसंधिप्रसादकम् ३४६
तैलमात्रोपयोगेन व्याधिं निर्मूलतां
नयेत् । सर्ववातविनाशाय वृक्षमि-
न्द्राशनिर्यथा ॥ महामाषमिदं तैलं
कृष्णात्रेयेण पूजितम् ॥ ३४७ ॥

उत्तम काले उडद एक द्रोण, अमगन्ध, गतावर, प्रसारन, कधी, अडकी जड, पियावांसेकी जड, केतकीकी जड, कौछ, खिरैटी और दगमूलकी औपधिये ये प्रत्येक द्रव्य दश २ पल और मुरगेका मास चौसठ पल लेवे । सबको एक सूर्प (कुम्भ) परिमाण जलमे पकावे । जब पकते २ जल चौदाई भाग बाकी रह जाय तब उतारकर छान लेवे, फिर इस काथमे दूध १ द्रोण परिमाण, तेल १ प्रस्थ, तथा जीवनीयगणकी औपधिये, अष्टवर्गकी औपधिये, मुलैठी, चन्दन, सैधानमक, देवदारु, खिरैटी, कूठ, रायसन, इलायची, कौछ, वालडड, वच, सौफ, विदारीकन्द, प्रसारिणी, विधारेकी जड, वायविडग, धूपसरल, शतावर, असगन्ध, कचूर, सोठ, मिरच, पीपल, अमलवेत और दारुहल्दी ये प्रत्येक औपधि चार २ माससे लेकर वारीक कलक कर, यथा विधि मिलाकर तेलको पकावे । इस तेलको पान, वन्ति,

अभ्यंग, नस्य कर्म, कर्ण और नेत्रोंके पूरण करनेमें प्रयोग करो। यह—अर्दित, कर्णशूल, शिरोरोग, हनुग्रह, सर्वप्रकारके मुखरोग, मन्यास्तम्भ, अपवाहुक, कर्ण-स्त्राव, चधिरता, त्रिदोषज, तिमिररोग, हृदयरोग, गृध्रसीवात, आमवात, कण्ठग्रह, कलायखंज, विश्वाची, जघागतवात, ऊरुगतवात, पादगतवात, पृष्ठगतवात, अत्यन्त पाञ्चकूल, अत्रवृद्धि, अण्डवृद्धि, दारुण वात-रक्त, पीनस, कुटजता, पंगुता और अस्सीप्रकारके वातरोगोंको दूर करता है । यह तेल—वलीपलित विनाही अवस्थाके शरीरमें बलोंका पटना और बालोंका सफेद हो जाना, खालित्य (गंज) और केशोंका गिरना इनको दूर करता है । बल, मास और शुक्रकी वृद्धि करता है । यह गर्भको उत्पन्न करनेवाला और गर्भिणी स्त्रियोंको अत्यन्त हितकारक है । हाथी घोंडे और ऊट आदिसे गिर पडनेसे, कुम्भी लडनेसे, दूटो हुई संधियोंके जोडनेवाला है । केवल इस तेलको ही सेवन करनेसे रोग जडसे नष्ट होजाते हैं। जिस प्रकार इन्द्रके वज्रसे वृक्ष नष्ट होजाता है, उसी प्रकार सर्व प्रकारके वातरोग नष्ट हो जाते हैं । यह महामापतैल कृष्णात्रेय करके पूजित है ॥३३३—३४७ ॥

क्षीराटकं शतावर्या रसप्रस्थद्वयं पृथक् । शृङ्गवेरस्य तैलस्य प्रस्थं सा-
ध्यञ्च कार्षिकैः ॥ ३४८ ॥ शताहा-
दारुशैल्यमांसीचन्दनवालकैः । त्व-
गेलान्शुमतीराम्नातगरैरण्डसैन्धवैः ॥
॥३४९॥ अश्वगन्धासमंगोत्रामूर्वाम-
रिचनागरैः ॥ तन्मासपतिं विधिव-
त्तैलं सिद्धार्थकं जयेत् ॥ ३५० ॥ कुञ्ज-
वामनपंगुत्ववातभग्नावकुञ्चनम् । स-
र्वाङ्गैकाङ्गरोगांश्च हनुमन्यागलाम-
यान् ॥ ३५१ ॥ वातरक्तञ्च कुष्ठानि
कंडूपाभाविचर्चिकाः । गण्डमाला-
पचीवक्त्रपाकोदरभगन्दरान् ॥ ३५२ ॥
कुष्ठव्रणान्सविषमानारम्भान्विविधा-
ञ्ज्वरान् । सन्निपातांश्च शूलानि वि-
षमूर्ध्वभ्रमामयान् ॥ ३५३ ॥ वा-
तगुल्मं बहून्मेहानन्त्रवृद्धिश्च शर्करा-

म् । कामलां पांडुरोगश्च शूलं नेत्रग-
दोद्भवम् ॥ ३५४ ॥ मूढगर्भाश्च भग्नां-
श्च योनेर्वन्ध्यामयान्बहून् । वृद्धाना-
मल्पशुक्रदृक्स्मृतीनां क्षयरतसाम् ३५५
रसायनं बलारोग्यवर्ण्याग्न्यायुर्विव-
र्द्धनम् ॥ ३५६ ॥

उत्तम गायका दूध १ आढक परिमाण, शतावरका रस २ प्रस्थ, अदरखका रस २ प्रस्थ और तेल १ प्रस्थ तथा सौफ, देवदारु, भूरिछरीला, बालछड, चन्दन, सुगन्धवाला, बालचीनी, इलायची, शालिपर्णी, राय-सन, तगर, अण्डकी जड, सैधानमक, असगन्ध, मजीठ, वच, चुरनहार, कालीमिरच और सोठ इन सब औषधियोंके १ तोला कलकके द्वारा सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिसे तैलको पकावे । इस तेलको विधिपूर्वक मारापर्यन्त सेवन करनेसे—कुटजता, वाम-नता, पंगुता, वातभय, अवकचन, सर्वांगवात, एकांग-वातरोग, हनुस्तम्भ, मन्यास्तम्भ, गलस्तम्भ, वातरक्त, कुष्ठ, कंडू, पामा, विचर्चिका, गण्डमाला, अपची, मुखपाक, उदररोग, भगन्दर, कुष्ठ, व्रण, अनेकप्रका-रके विषमञ्जर, सन्निपात, शूल, विष, भ्रम, मूर्च्छाके रोग, वातगुल्म, बहुत प्रकारके प्रमेह, अन्त्रवृद्धि, गंकरा, कामला, पांडुरोग, शूलरोग, नेत्ररोग, मूढगर्भ, भयरोग, योनिदोष और बन्ध्यापन दूर होता है । जो मनुष्य वृद्ध होगये है, जिनके अल्प शुक्र और जिनकी दृष्टि मंद है, जिनकी स्मरणशक्ति घट गई है, जिनका वीर्य क्षय होगया है उनके यह तेल रसायन, बल, आरोग्यता, वर्ण अग्नि और आयुको बढ़ानेवाला है ॥ ३४८—३५६ ॥

शतावरआदिके खोदनेका मन्त्र ।

ॐ नारायणाय स्वाहा । उत्तराभि-
मुखः स्थित्वा खदिरकीलकेन खनेत् ।

‘ॐ नारायणाय स्वाहा’ इस मंत्रको पढ़कर उत्तरकी ओर मुख करके खैरकी कीलसे शतावर आदिको खोदना चाहिए ।

शतावर्याः सर्वासां चोषधीनां
साधनायोत्पादन मन्त्रः ॥

शतावरआदि औपधियोको सब काय्योमे लेनेके लिये इसी मन्त्रसे उखाडकर इसी विधिसे लाना चाहिए ।

“ॐ कुमारवीजनाय स्वाहा । इत्यु-
त्पाटनमन्त्रः ॥”

“ॐ कुमारवीजनाय स्वाहा” यह शतावर आदिके उखाडनेका मन्त्र है ।

महामाषतैल ।

माषस्यार्द्धाढकं देयं दशमूलं तुला-
द्धतः । बलामूलन्तु तस्यार्द्धं केतकी-
नां तथैव च ॥ ३५७ ॥ दक्षमांसं पलं
त्रिंशन्निंश्रटिकाः पञ्चाविंशतिः । जल-
द्रोणद्वये पक्ता पादशेषेऽवतारिते ॥
॥ ३५८ ॥ तिलतैलस्य च प्रस्थं पयो
दत्त्वा चतुर्गुणम् । जीवनीयानि शान्य-
न्यष्टौ मञ्जिष्ठाचव्यकट्फलम् ॥ ३५९ ॥
व्योषं रास्नाकणामूलं मधुकं पुष्करं
तथा । माषात्मगुप्तकैरण्डशताह्वा
लवणत्रयम् ॥ ३६० ॥ कुष्ठाश्वगन्धा
ह्यमृता यवानी सवचाशटी । नागरं
मागधी मुस्तं वर्षाभूरजनीद्वयम् ॥
॥ ३६१ ॥ शतावरीवृहत्यौ च एतै-
रक्षसमन्वितैः । पक्षाघातेषु सर्वेषु
ह्यर्दिते च हनुग्रहे ॥ ३६२ ॥ मन्दश्रुतौ
च श्रवणे तिमिरे च त्रिदोषजे ।
हस्तकम्पे शिरःकम्पे गात्रकम्पे शि-
रोग्रहे ॥ ३६३ ॥ शस्तं कलायखञ्जे
च गृध्रस्यामपबाहुके । बाधिये कर्ण-
नादे च सर्ववातविकारनुत ॥ ३६४ ॥
दण्डापतानके चैव मन्यास्तम्भे वि-
शेषतः । हनुस्तम्भे प्रशस्तं स्यात्
सूतिकावातनाशनम् ॥ ३६५ ॥ त्वच्यं
मांसप्रदञ्चैव शुक्राग्निबलवर्द्धनम् ।
अण्डवृद्धिमन्त्रवृद्धिं वातरक्तञ्च ना-
शयेत् ॥ ३६६ ॥

उत्तम उडद आधे आढक परिमाण, दशमूलकी औपधिये ५० पल, खिरैटोकी जड २५ पल, और कतकीकी जड २५ पल, मुरगेका मांस ३० पल और पियावांसा पचीसपल, इन सबको एकत्र दो द्रोण जलमे पकावे । जब पकते २ जल चौथाई भाग वाकी रह जाय तब उतारकर छान लेवे। फिर इसमे तिलका तैल एक प्रस्थ, दूध चार प्रस्थ, जीवनीयगणकी ८ औपधिये, मजोठ, चव्य, कायफल, त्रिकुटा, रायसन, पोपलामूल, मुलेटो, पोहकरमूल, उडद, कौंठ, अडकी जड, सौफ, संधानमक, कालानमक, कचियानम, कूठ, असगंध, गिलोय, अजवायन, वच, कचूर, सोठ, पोपल, नागरमोथा, पुनर्नवा, हलदी, दारुह-लदी, शतावर, कंठरी और बडी कंठरी प्रत्येक औपधिका कल्क एक एक तोला, सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिसे तैलको पकावे । यह महामाष-तैल सर्वप्रकारके पक्षाघात रोग, आर्दत, हनुग्रह, कमसुनना, वधिरता, त्रिदोषज निमिररोग, हस्तकंप, शिरःकंप, गात्रकंप, शिरारोग, कलायखज, गृध्रसी, अत्यन्त अपवाहुकरोग, वधिरता, कर्णनाद, सर्वप्रकारके वातके विकार, दण्डापतानकरोग, मन्यास्तम्भ, हनुस्तम्भ और सूतिकाके वातविकारोंको नष्ट करता है । त्वचाको हितकारी, मांसवर्द्धक, गुक्र, अग्नि और बलको बढ़ानेवाला एवं अण्डवृद्धि, अन्त्रवृद्धि और वातरक्तको नष्ट करता है ॥ ३५७—३६६ ॥

माषतैल ।

माषप्रस्थं बलाप्रस्थं दशमूल्यास्तथा
परम् । प्रस्थं सहचरस्यैकमश्वाहाप्र-
स्थमेव च ॥ ३६७ ॥ जलद्रोणद्वये पक्ता
चतुर्भागावशेषिते । तैलप्रस्थं पचेच्छा
गक्षीरं दत्त्वा चतुर्गुणम् ॥ ३६८ ॥ कल्कैः
सिन्धूत्थयष्ट्याह्वरास्नाव्योषाश्वगन्ध-
कैः । शतपुष्पासमायुक्तैस्तत्सिद्धं
सर्ववातनुत ॥ ३६९ ॥

उडद १ प्रस्थ, खिरैटी १ प्रस्थ, दशमूल १ प्रस्थ, पियावांसा १ प्रस्थ और असगन्ध १ प्रस्थ इन सबको दो द्रोण जलमे पकावे । जब पकते २ जल चौथाई भाग वाकी रह जाय तब उतारकर छान लेवे। फिर इस काथमें

तिलका तेल १ प्रस्थ, बकरीका दूध चार प्रस्थ, कलरुके लिये सैधानमक, मुलेठी, रायसन, त्रिकुटा, असगन्ध और सौंफ, प्रत्येक औषधि दो दो तोले लेकर कलरु बनाकर सबको यथाविधिसे एकत्र मिलाकर तेलको पकावे । यह तेल सर्व प्रकारके वात-विकाराको दूर करता है ॥ ३६७-३६९ ॥

चतुर्विंशतिकाप्रसारिणीतेल ।

शतत्रयं प्रसारिण्या द्वे च पीतसहा-
चरात् । अश्वगन्धेरंडवलावरिरात्मा-
पुनर्नवाः ॥ ३७० ॥ केतकीदशमू-
लञ्च पृथक् त्वक्पारिभद्रतः । प्रत्येक-
मेषान्तु तुला तुलार्धं किलिमं तथा ॥
॥ ३७१ ॥ तुलार्धं स्याच्छिरीषस्य
लाक्षायाः पञ्चविंशतिः । पलानि
लोधाञ्च तथा सर्वमेकत्र साधयेत् ॥
॥ ३७२ ॥ जले पंचाढकशते सपादे तत्र
शेषयेत् । द्रोणद्वयं काञ्जिकञ्च षड्विं-
शत्याढकान्वितम् । क्षीरदध्नोः पृथ-
क्प्रस्था दश मस्त्वाढकं तथा ॥ ३७३ ॥
इक्षोरसाढके चैव द्वागमांसतुलां न-
येत् । जलं पञ्चचत्वारिंशत्प्रस्थे पक्के
तु शेषयेत् ॥ ३७४ ॥ सप्तदशरसप्र-
स्थान्माञ्जिष्ठाकाथ एव च । कुडवोना-
ढकोन्माने द्रवैरेभिस्तु साधयेत् ॥ ३७५ ॥
सुशुद्धतिलतेलस्य द्रोणप्रस्थेन संयु-
तम् । आद्य एभिर्द्रवैः पाकः कल्कैर्भ-
ल्लातकं कणा ॥ ३७६ ॥ नागरं मरिचं
चैव प्रत्येकं षट्पलोन्मितम् । भल्लात-
काऽसहित्वे तु रक्तचन्दनमिष्यते ३७७
पथ्याक्षधात्र्यः सरलं शताहाकर्कटी-
वचाः । चोरपुष्पीशटीमुस्तं द्वयं प-
ञ्चञ्च सोत्पलम् ॥ ३७८ ॥ पिप्पलीनू-
लमञ्जिष्ठासाश्वगन्धापुनर्नवाः । दश-
मूलं सशुद्धिष्टं चक्रमदौ रसाञ्जनम् ॥
॥ ३७९ ॥ गन्धतृणं हरिद्रा च जीव-
नीयगणस्तथा । एतेषां पलिकैर्भागै-

राद्यः पाको विधीयते ॥ ३८० ॥ देव-
पुष्पीबोलपत्रे शल्लकीरसशैलजे । प्रि-
यंगूशीरमधुरीमांसीदारुबलावचाः
॥ ३८१ ॥ श्रीवासो नालिकाख्येति
सूक्ष्मैला कुन्दुरुमुरा । नखीद्रयञ्च
त्वक्पत्री सुमना पृतिचम्पकम् ॥ ३८२ ॥
मदनं रेणुका स्पृक्का मातुलुङ्गं पलत्र-
यम् । प्रत्येकं गन्धतोयेन द्वितीयः
पाक इष्यते ॥ ३८३ ॥ गंधोदकी च
त्वक्पत्री पत्रकोशीरमुस्तकम् । प्रत्ये-
कं सबलामूलं पलानि पञ्चविंशतिः ॥
॥ ३८४ ॥ कुय्यादद्भेभागोऽत्र जलप्र-
स्थं पञ्चविंशतिः । अर्द्धावशिष्टाः
कर्त्तव्याः पाके गन्धांबुकर्मणि ॥ ३८५ ॥
गन्धांबुचन्दनांबुभ्यां तृतीयः पाक
इष्यते । कल्कोऽत्र केशरं कुष्ठं त्वक्का-
लीयककुंकुमम् ॥ ३८६ ॥ भद्रश्रियं
अन्थिपर्णं लताकस्तूरीका तथा । ल-
वङ्गागुरुकंकोलजातीकोषफलानि च
॥ ३८७ ॥ एलालवङ्गवल्ली च प्रत्येकं
त्रिपलोन्मिता । कस्तूरी षट्पला
चन्द्रात्पलं सार्धञ्च गृह्यते ॥ ३८८ ॥
वेधार्थञ्च पुनश्चन्द्रं मेदौ देयौ तथो-
न्मितौ । महाप्रसारणी सेयं राजभो-
ग्या प्रकीर्त्तिता ॥ ३८९ ॥ गुणान्प्र-
सारणीनान्तु बहृत्येषां बलौत्तमान् ३९०

गधप्रसारिणी तीनसौ ३०० पल. पीले फूलका
पिया बॉसा दोसौ २०० पल, असगध, अंडकी जड,
खिरंटी, शतावर, रायसन, पुनर्नवा, केतकी, दशमूल
और नीमकी छाल ये प्रत्येक सौ सौ पल, देवदारु
पचास पल, गिरसकी छाल पचासपल, लाख पचीस
पल, लोव २५ पल, इन सबको पचास आढक जलमे
पकावे । जब पकते पकते जल चौथाई भाग बाकी
रहजाय तब उतारकर छान लेवे, फिर एकद्रोण काँजी
(यद्यपि मूलमे काँजी दो द्रोण और छब्बीस आढक

परिमाण लिखी है तथापि वृद्ध वंशोंके मतसे १द्रोण हि डालनी चाहिये, क्योंकि काँजीकी गन्ध अधिक-तासे आने लगती है), दूध और दही प्रत्येक दश दश प्रस्थ, दहीका तोड़ एक आठक, ईखका रस एक आठक, बकरेका मांस १०० पल लेकर ४५ प्रस्थ जलमें पकावे। जब पकते पकते १७ प्रस्थ जल छेप रहजाय तब उतारकर छानलेवे, फिर मजीठका काथ ७॥ सैर, तिलका तेल एकद्रोण एक प्रस्थ, कल्कके लिये भिलावे, पीपल, सोठ, कालीभिरच, ये प्रत्येक छः छ पल लेवे, जो भिलावे न मिले तो उसके अभावमें लालचंदन लेना चाहिए। तथा हरड, वहेडा, आमला, भूपसरल, सौंफ, काकडाशिगी, नच, अंधाहुली, कचूर, नागरमोथा, कमल, कुमुद, पीपलामूल, मजीठ, असगंध, पुनर्नवा, दशमूल, चकवड, रसौत, गंधतृण, हलदी और जीवनीयगणकी समस्त औषधिये ये प्रत्येक चार चार तोले लेकर कल्क बनाकर प्रथम चार पाक करे। पश्चात् लौंग, वोल, तेजपात, शल्लकीका गोद, भूरिल्लीरीला, फूलप्रियगु खस, सौंफ, बालछड, देवदारु, खिरैटी, वच, श्रीवासका गोद, नली, छोटी इलायची, कुन्दुरु, मुरामांसी, दोनो प्रकारकी नखी, दालचीनी, गंगापत्री, चमेली, खट्टाशमुष्क, चम्पा, सैनफल, रेणुका, असवरग और विजौरानीवू ये प्रत्येक तीन तीन पल; इन सबके कल्कके साथ और प्रत्येक गंधजलके साथ दूसरा पाक करे। गंधोदक बनानेकी विधि यह है कि, दालचीनी, गंगापत्री, तेजपात, खस, नागरमोथा और खिरैटीकी जड प्रत्येक पचीस पचीस पल लेकर पचीस पल जलमें पकाव। जब आधा जल बाकी रह जाय तब उतार लेवे, इसको गधाम्बु कहते हैं। इस गंधोदकके द्वारा दूसरा पाक करे। फिर इस गंधोदक और चन्दनोदकके द्वारा निम्नलिखित कल्कके द्वारा तीसरा पाक करे। अब चन्दनोदक बनानेकी विधि कहते हैं, कुटाहुआ चंदन ५० पल, जल २५ प्रस्थ, अर्द्धावशेष अथवा चतुर्थांश शेष काथ बनावे और चन्दनको जलमें घिस लेवे। इसको चंदनोदक, चन्दनाम्बु और चंदनजल कहते हैं। उपरोक्त चन्दनोदक और गंधोदकके द्वारा नागकेशर, कूठ, दालचीनी, पीलाचंदन, केशर, चन्दन, गाठवन, लताकस्तूरी, लौंग, अगर, शीतलचीनी, जायफल, जावित्री, इलायची और लौंगकी बेल

प्रत्येकका कल्क तीन तीन पल, कस्तूरी छः पल और कपूर छे तोले इनके कल्कके द्वारा तीसरा पाक करे। जब तेल पककर तैय्यार हो जाय तब सुवासित करनेके लिये कस्तूरी और कपूर अनुमानसे मिलाने चाहिए। यह महाप्रसारिणी तेल राजाओंके सेवन करने योग्य है। यह तेल अन्यप्रसारिणीतेलोंकी अपेक्षा अधिक गुणोंवाला है ॥ ३७०—३९० ॥

शुक्तवनानेकी विधि ।

अत्र शुक्तविधिर्मण्डः प्रस्थं पश्चात्-
कोन्मितम् । काञ्जिकं कुडवां दध्नी
शुडप्रस्थोऽम्बुमूलकात् ॥ ३९१ ॥ प-
लान्यष्टौ शोधितार्द्रापलं षोडशकं
तथा । कणाजीरकसिन्धूत्थहरिद्रा-
मरिचं पृथक् ॥ ३९२ ॥ द्विपलं भा-
विते भांडे घृतश्चाष्टदिनस्थितम् ।
सिद्धं भवति तच्छुक्तं यदावतार्यं
गृह्यते । तदा देयं चतुर्जातं पृथक्पत्र-
योन्मितम् ॥ ३९३ ॥

भातका मांड ६४ तोले, कांजी ५ आठकपरिमाण दही ३२ तोले, गुड ६४ तोले, काजिमूलक (कांजीके नीचेकी जमी हुई गाद) आठ पल, शुद्ध अदरख १६ पल, पीपल, जीरा, सैधानमक, हलदी और काली भिरच, ये प्रत्येक दो दो पल लेवे फिर सबको एकत्र घीके चिकने वासनमें भरकर आठ दिनतक रक्खा रहने देवे। फिर इसमें दालचीनी, इलायची, तेजपात और नागकेशर प्रत्येकका चूर्ण छे छे तोले मिला देवे। इसको शुक्त कहते हैं ॥ ३९१—३९३ ॥

पञ्चपल्लवके द्वारा शुद्धि ।

पञ्चपल्लवतोयेन गंधानां क्षालनं तथा ।
शोधनं चात्र संस्कारो विशेषश्चात्र
वक्ष्यते ॥ ३९४ ॥ आम्रजंबूकपित्थानां
बीजपूरकविल्वयोः । गंधकर्मणि
सर्वत्र पत्राणि पञ्चपल्लवम् ॥ ३९५ ॥

पंचपल्लवके कोमल पत्तोंके काथके द्वारा समस्त गंधद्रव्योंको धोकर धूपमें सुखाना चाहिए। इसप्रकार

समस्त गन्धद्रव्य शुद्ध होते हैं । आम, जामुन, कैथ, विजौरानीवू और वेल इन पांचों वृक्षोंके पत्तोंको पंचपल्लव कहते हैं । यह सब गन्धकर्मोंमें प्रयोग किये जाते हैं ॥ ३९४ ॥ ३९५ ॥

नखशुद्धि ।

चण्डीगोमयतोयेन यदि वा तित्ति-
डोजलैः । नखं संक्राथयेदेभिर्भाण्डेन
मृण्मयेन तु ॥ ३९६ ॥ पुनरुद्धृत्य प्र-
क्षाल्य भर्जयित्वा निषेचयेत् । गुड-
पथ्यांबुना ह्येवं शुद्धयते नात्र संश-
यः ॥ ३९७ ॥

नखद्रव्यको भैसके गोवरके रस अथवा इमलीके काथसे काली मिट्टीके वर्तनमें आटावे, फिर गंधोदकसे धोकर घीमें भूनकर गुड मिलाकर हरडोंके जलमें भिजोकर धूपमें सुखा देवे तो निःसंदेह नख शुद्ध हो जाता है ॥ ३९६ ॥ ३९७ ॥

हरिद्रावचाशुद्धि ।

गोमूत्रे चालंडुषके पक्ता पञ्चदलोद-
के । पुनः सुरभितोयेन वाष्पस्वेदन
स्वेदयेत् ॥ ३९८ ॥ गंधोया शुध्यते ह्येवं
रजनी च विशेषतः ॥ ३९९ ॥

वच और हलदीको गोमूत्र और गोरखमुंडीके काथमें तथा पंचपल्लवके काथमें पकाकर गंधोदकके जलकी वाष्प देकर स्वेदन कर सुखा लेवे तो वच शुद्ध हो जाती है और विशेष कर हलदी शुद्ध हो जाती है ॥ ३९८ ॥ ३९९ ॥

मुस्तकशुद्धि ।

मुस्तकन्तु मनाक् क्षुण्णं काञ्जिके त्रि-
दिनोषितम् । पञ्चपल्लवपानीये स्वि-
न्नमातपशोषितम् ॥ ४०० ॥ गुडां-
बुना सिच्यमानं भर्जयेच्चूर्णयेत्ततः ।
आजसौभाजनजलैर्भावयेदिति शु-
द्धयति ॥ ४०१ ॥

नागरमोथेको कूटकर तीन दिनतक कांजीमें भिजो रक्खे, फिर पंचपल्लवके जलमें पकाकर सुखा लेवे । फिर गुडके गर्वतमें भिजोकर सुखा लेवे, पश्चात् भूनकर चूर्ण कर ले, फिर वकरीके मूत्र और

सहिजनेके रसकी भावना देवे तो नागरमोथा शुद्ध हो जाता है ॥ ४०० ॥ ४०१ ॥

शैलजशुद्धि ।

काञ्जिके कथितं शैलं भृष्टा पथ्या-
गुडांबुना । सिध्देवं ततः पुष्पैर्विचि-
धैरधिवासयेत् ॥ ४०२ ॥

प्रथम भूरिछरीलेको कांजीमें पकाकर पंचपल्लवके जलसे धो डाले, फिर धूम्रमें भूनकर हरड और गुडके जलमें भिजोकर अनेक प्रकारके सुगंधित पुष्पोंसे सुवासित करले तो भूरिछरीला शुद्ध हो जाता है ॥ ४०२ ॥

खट्टाशीशुद्धि ।

यथालाभमपामार्गस्तुह्यादिक्षीरलेपि-
तम् । वाष्पस्वेदेन संस्वेद्य पूतिं नि-
लोमतां नयेत् ॥ ४०३ ॥ दोलापा-
कं पचेत्पश्चात्पञ्चपल्लववारिणि । खलः
साधुमिवोत्पीडय ततो निःस्नेहतां
नयेत् ॥ ४०४ ॥ आजसौभाजनज-
लैर्भावयेच्च पुनः पुनः । शिशुमूले च
केतक्याः पुष्पपत्रपुटे च तम् । पचेदेवं
विशुद्धश्च मृगनाभिसमो भवेत् ॥ ४०५ ॥

चिरचिटा और थूहरके दूधसे खट्टाशीको लेपकर भापसे स्वेदन करे तो यह दुर्गंधरहित और रोम-
शून्य हो जाती है । फिर इसको पंचपल्लवके जलमें दोलायंत्रके द्वारा पकाकर निचोड लेवे तो खट्टाशी स्नेहरहित हो जाती है । पश्चात् वकरीके मूत्र और सहिजनेके रसमें वारवार भावना देकर सहिजनेकी जड, केतकीके फूल और पत्तोंसे लपेटकर पुटपाक विधिसे पकावे । इस प्रकार करनेसे खट्टाशी शुद्ध होकर कस्तूरीके समान हो जाती है ॥ ४०३ ॥ ४०४ ॥ ४०५ ॥

शिलारसादि शुद्धि ।

तुरुष्कं मधुना भाव्यं काश्मीरश्वापि
सर्पिषा । रुधिरणायसं प्राज्ञैर्गोमूत्रै-
र्ग्रन्थिपर्णिकम् ॥ ४०६ ॥ मधूदकेन
मधुरीपत्रकं तंडुलांबुना । ईषत्क्षारा-

लुगंधा तु दग्धा याति न भस्मता-
 म् ॥ ४०७ ॥ पीता केतकगंधा वा लघु
 स्निग्धा सृगोत्तमा ॥ ४०८ ॥ पक्वात्क-
 पूरतः प्राहुरपक्वं गुणवत्तरम् । तत्रा-
 पि स्याद्यदक्षुद्रं स्फटिकाभं तदुत्त-
 मम् ॥ ४०९ ॥ पक्वञ्च सदलं स्निग्धं
 हरितद्युति चोत्तमम् । भङ्गे मनागपि
 न चेन्निपतन्ति ततः कणाः ॥ ४१० ॥
 मृगशृङ्गोपमं कुष्ठं चन्दनं रक्तपीतक-
 म् । काकतुंडाकृतिः स्निग्धो गुरुश्चै-
 वोत्तमोऽगुरुः ॥ ४११ ॥ स्निग्धाल्प-
 केशरं त्वस्त्रं शैलजो वृत्तमांसलः ।
 मुरा पीता वरा प्रोक्ता मांसी पिङ्गज-
 टाकृतिः ॥ ४१२ ॥ रेणुका सुद्वसंस्थानां
 शस्तमानूपजवनम् । जातीफलं स-
 शब्दञ्च स्निग्धं गुरु च शस्यते ॥ ४१३ ॥
 एला सूक्ष्मफला श्रेष्ठा प्रियंगूः श्याम-
 पाण्डुरा । नखमश्वखुरं हस्तिकर्णश्चै-
 वात्र शस्यते । एतेषामपरेषाञ्च नव-
 ताप्रवरो गुणः ॥ ४१४ ॥

गिलारसको गहदमं भावना देनेसे, केशरको वीमे
 भावना देनेसे, लोहेको रुधिरमे भावना देनेसे, गठिवन
 को मोमूत्रमं भावना देनेसे, सोफको मधूदक (गहदके
 गर्वतमे) भावना देनेसे और तेजपातको चावलोके
 जलमे भिजोनेसे शुद्धि होती है । किञ्चित् क्षार
 गंधवाली कस्तूरीको जलानेसे भस्म नहीं होती है ।
 तथा पीली केतककी समान गन्धवाली हलकी और
 चिकनी ऐसी कस्तूरी उत्तम है । पक्के कपूरसे अपक्क
 कपूर विशेषगुणोवाला होता है । इसमें भी बड़ा
 और स्फटिकके समान स्वच्छ उत्तम होता है । पक्का
 कपूर भी पत्रोवाला, चिकना और हरीकातिवाला
 उत्तम होता है, परन्तु तोडनेमे उसके टुकडे टूट २
 कर अलग न गिरे । हिरनके सींग समान कूठ उत्तम
 होता है, लाल और पीले रंगका चन्दन उत्तम होता
 है । अगर कौवेकी चोचके समान, चिकनी और
 भारी उत्तम होती है । चिकनी और अल्पकेशरवाली
 केशर उत्तम होती है । भूरिछरीला गोल और स्थूल

उत्तम होता है । मुरामांसी (एकाङ्गी मुरा) पीली उत्तम
 होती है । बालछड पीली जटवाली उत्तम होती है ।
 रेणुका मृगो ममान उत्तम होती है । नागरमोथा
 अल्पदेशका उत्तम होता है । जायफल जटयुक्त,
 चिकना और भारी उत्तम होता है । इलायची छोटे
 फलवाली उत्तम होती है । फ्रप्रियंगू काला और
 पाण्डुरगका उत्तम होता है । नख चोडके मृगके
 समान और हाथीके कानोके समान उत्तम होता है ।
 ये सब तथा अन्यान्य समस्त औषधिये नवीन ही
 विशेष गुणवाली जाननी चाहिये ॥ ४०६—४१४ ॥

महामापतल ।

भाषद्रोणं समादाय अश्वगन्धाप्रसा-
 रिणी । द्विपञ्चमृत्यात्मगुणः बलाग-
 न्धर्वहस्तकः ॥ ४१५ ॥ एषां दशप-
 लान्भागान्धारिद्रोणे चतुष्टये । का-
 थमेभिः प्रकुर्वीत चतुर्भागावशेषि-
 तम् ॥ ४१६ ॥ यष्ट्याह्वदारुकुष्ठैला-
 रास्त्रामांसीबलावचाः । शताह्वा चा-
 त्मगुप्ता च चाश्वगन्धा च चन्दनम् ॥
 ४१७ ॥ शट्युरुबुकवृक्षाम्लयूष-
 णागुरुवृश्चिकम् । सिन्धुद्रवं विदारी
 च प्रसारिणी शतावरी ॥ ४१८ ॥ वृ-
 द्धदारुकातिबलाविडङ्गसरलानि च ।
 कल्कैरैतैः पलैर्भागैस्तैलाढकसमायु-
 तैः ॥ ४१९ ॥ क्षरितुल्यसमायुक्तं
 शनैर्भृद्रग्निना पचेत् । पाने बस्तौ
 तथाभ्यङ्गे नस्ये भोज्ये च पूजितम् ॥
 ४२० ॥ अर्दिते कर्णशूले च शिरो-
 रोगे हनुग्रहे । मुखरोगेषु सर्वेषु म-
 न्यास्तम्भेऽपवाहुके ॥ ४२१ ॥ मन्द-
 श्रवणबाधिये कर्णरोगातिधीनसे ।
 हृद्रोगं गृध्रसिञ्चैव आमवातं कटिप्र-
 हम् ॥ ४२२ ॥ जंत्रोरुपादपृष्ठेषु पा-
 र्श्वशूलमतीव च । अन्त्रवृद्धचण्डवृ-
 द्धिश्च वातरक्तं सुदारुणम् ॥ ४२३ ॥

विश्वाचीखञ्जपगुवातावशीति वात-
जान्हेत ॥ ४२४ ॥ वलीपलितखा-
लित्यं केशानां पतनं परम् । बलमां-
सकरश्चैवशुक्रवृद्धिकरं परम् ॥ ४२५ ॥
अपत्यजननं श्रेष्ठं गर्भिणीनां परं हि-
तम् ॥ हस्त्यश्वोष्ट्रादिव्यायामैर्भग्नस-
न्धिप्रसाधनम् ॥ ४२६ ॥ तैलमात्रो-
पयोगेन व्याधिनिर्मूलनां नयेत् । स-
र्वान्तकविनाशाय वृक्षमिन्द्राशनिर्य-
था । महामाषमिदं तैलं कृष्णात्रेयेण
पूजितम् ॥ ४२७ ॥

उत्तम काले उदक एक द्रोण, असगन्ध, प्रसारणी,
दशमूल, कौंठ, खिरंटी और अण्डकी जड़ ये प्रत्येक
दश दश पल लेकर सबको चार द्रोण जलमे पकावे ।
जब पकते २ जल चौथाई भाग शेष रह जाय तब
उतारकर छान लेवे । फिर इस काथमे मुलैठी, देव-
दारु, कूठ, इलायची, रायसन, बालडड, खिरंटी,
वच, सौफ, कौंठ, असगध, चन्दन, कचूर, अण्डकी
जड़, विपाविल, त्रिकुटा, अगर, विछाटी, सैधानमक,
विदारिकन्द, प्रसारणी, गतावर, विधारा, कर्वा, वाय-
विडग और धूप सरल, ये प्रत्येक औपधि चार चार
तोलें लेकर कल्क बनाकर डाल देवे तथा तिलका
तेल एक आढक और दूध एक आढक मिलावे ।
सबको यथाविधिसे मिलाकर उत्तम विधिसे मन्द २
अग्निसे तैलको सिद्ध करे । इस तैलको पान, वस्ति-
कर्म, अभ्यग, नस्य और भोजनमे प्रयोग करे ।
यह महामाषतैल—शार्दतरोग, कर्णशूल, शिरोरोग,
हनुग्रह, सर्व प्रकारके मुखरोग, मन्यास्तम्भ, अप-
वाहुकरोग, मन्दश्रवण, वधिरता, कर्णरोग पीनसरोग,
हृदयरोग, गृध्रसीरोग, आमवात, कटिग्रह,
जंघागतशूल, कंठशूल, पादशूल, पृष्ठशूल, पार्श्वशूल,
अन्त्रवृद्धि, अण्डवृद्धि, दारुण वातरक्त विश्वाचीवात,
खञ्जवात, पंगुवात, अस्ती प्रकारके वातरोग, वली-
पलित, (विना समय ही शरीरमे बलोका पडना,
और विना समयही बालोका सफेद हो जाना)
खालित्यरोग और बालोका गिरना, इत्यादि वात
सम्बन्धीय अनेक रोगोको दूर करताहै तथा बल और
मांसको बढ़ानेवाला, शुक्रको बढ़ानेवाला बन्ध्या और
गर्भिणी स्त्रियोंको अत्यन्त हितकारी, हाथी, घोड़े

और ऊँट आदिपरसे गिरनेसे और व्यायाम करनेसे
दूटी हुई संधियोंको जोड़नेवाला है । इस केवल तैलको
सेवन करनेसे ही सर्वप्रकारके रोग नष्ट होते हैं । जिस
प्रकार वज्र वृक्षोको नष्ट कर देता है उसी प्रकार
यह तैल सर्वप्रकारके रोगोको नष्ट करदेता है यह
महामाषतैल कृष्णात्रेय करके पूजित है ॥ ४२५-४२७ ॥

शतकप्रसारिणीतैल ।

प्रसारिणीशतकाथे तैलप्रस्थं पयः
समम् । जीवकर्षभकौ भेद काकोल्यौ
कुष्ठचन्दने ॥ ४२८ ॥ शताह्वां दारु
मञ्जिष्ठां रास्नां पिष्ट्वा विपाचयेत् । व-
स्तिपानादिभिर्युक्तमेतन्मारुतरोग-
नुत् ॥ ४२९ ॥

१०० पल प्रसारिणीके काथमे एकप्रस्थ तैल और
बराबरका दूध डाले तथा जीवक, ऋषभक, भेदा,
महामेढा, काकोली, क्षीरकाकोली, कूठ, चंदन,
सौफ, देवदारु, मजीठ और रायसन इनका कल्क
गिलाकर विधिपूर्वक पकावे । इस तैलको वस्ति और
पानादिकर्ममे प्रयोग करनेसे सर्व प्रकारके वातरोग
नष्ट हो जाते हैं ॥ ४२८ ॥ ४२९ ॥

त्रिंशतिप्रसारिणीतैल ।

प्रसारण्यास्तुलामश्वगन्धाया दशमू-
लतः । तुलां तुलां पृथग्वारिद्रोण
पादांशशेषिते । तैलाढकं चतुः क्षीरं
दधितुल्यं द्विकाञ्जिकम् ॥ ४३० ॥
द्विपलैर्ग्रन्थिकक्षारप्रसारिण्यक्षसैन्ध-
वैः । समाञ्जिष्ठाग्रियष्ट्याह्वैः पलिकै-
र्जीवनीयकैः ॥ ४३१ ॥ शुण्ठ्याः प-
ञ्चपलान्दत्त्वा त्रिंशद्भ्रूल्लतकानि च ।
पञ्चेद्वस्त्यादिना वातं हन्ति सन्धि-
शिरास्थिगम् ॥ ४३२ ॥ पुंस्त्वोत्सा-
हस्मृतिप्रज्ञाबलवर्णाश्रिवृद्धये । प्रसा-
रिणीये त्रिंशत्यां त्वक्षं सौवर्चल
न्तिवह ॥ ४३३ ॥

प्रसारणी १०० पल, असगन्ध १०० पल और
दशमूलकी औपधिये १०० पल लेवे, सबको अलग

एक २ द्रोण जलमे पकावे । जव पकते २ चौथाई जल शेष रहजाय तव उतारकर छान लेवे । इन तानो काथोको एकत्र मिलाकर इसमे उत्तम तिलका तेल एक आठक, दूध ४ आठक, दही ४ आठक और कांजी ८ आठक तथा पिपलामूल, जवाखार, प्रसारिणी, बहेडा और सेधानमक प्रत्येक दो २ पल, मजीठ, चीता, मुलैठी और जीवनीयगणकी समस्त ओपधिये प्रत्येकका कल्क चार चार तोले, सोठका कल्क २० तोले और भिलावेका कल्क तीस पल, सबको यथाविधिसे मिलाकर मद मंद अग्निसे तेलको पकाने इम तेलको व्यवहार करनेसे वन्तिगत वात, संधिगत वात और शिरागत, अस्थिगत वात नष्ट होती है । तथा पुंसता, उत्साह, स्मरणशक्ति, प्रज्ञा, बल, वर्ण और अग्निकी वृद्धि होती है । इम त्रिशती प्रसारिणी तेलमें एक तोले प्रमाण कालानमक डालना चाहिये ॥ ४३०—४३३ ॥

कुञ्जप्रसारिणीतैल ।

प्रसारिणीशतं क्षुण्णं पचेत्तोयार्मणे शुभे । पादशिष्टे समं तैलं दधि दद्यात्सकाञ्जिकम् ॥ ४३४ ॥ द्विशुणश्च पयो दत्त्वा कल्काद्विपलिकास्तथा । चित्रकं पिप्पलीमूलं मधुकं सैन्धवं वचाम् ॥ ४३५ ॥ शतपुष्पां देवदारु रास्त्रां वारणपिप्पलीम् । प्रसारिण्याश्च मूलानि मांसी भल्लातकं तथा ॥ ४३६ ॥ पचेन्मृद्भिना तैलं वातश्लेष्माभ्याञ्जयेत् । अशीतिं नरनारीस्थान्वातरोगान्व्यपोहति ॥ ४३७ ॥ कुञ्जस्तिमितपंगुत्वं गृध्रसीखञ्जकार्दितम् । हलुपृष्ठशिरोग्रिवास्तम्भश्चाशु नियच्छति ॥ ४३८ ॥

प्रसारिणी १०० पल लेकर कूट लेवे, फिर उसको ५१२ पल जलमे पकावे । जव पकते २ चौथाई भाग जल शेष रह जाय तव उतारकर छान लेवे, फिर इस काथमे तेल, दही और काजी ये सब समान भाग तथा दूध दो भाग डाले एवं चीता, पीपलामूल, मुलैठी, सेधानमक, वच, सौंफ देवदारु, रायसन, गजपीपल, प्रसारिणी, बालुड और भिलावे

इन प्रत्येकका कल्क आठ आठ तोल मिलाकर मन्द मन्द अग्निसे विधिपूर्वक तेलको सिद्ध करे । यह तेल-वात कफजीनत राग, नरनारियोंके अम्सीप्रकारके वातरोग, कुञ्जता, जडता, पंगुता, गृध्र-सीधात, खंजता, अर्दित, हनुमन्तम्भ, पृष्टमन्भ, शिरस्तम्भ और ग्रीवास्तम्भको दूर करता है ॥ ४३४—४३८ ॥

सप्तशक्तिकामहाप्रसारिणीतैल ।

समूलपत्रामुत्पाद्य शरत्काले प्रसारिणीम् । शतं ग्राह्यं सहचरञ्छतावर्याः शतं तथा ॥ ४३९ ॥ वलात्मगुप्ताश्वगन्धाकेतकीनां शतं शतम् । चतुर्गुणेन तोयेन द्रवैस्तेलाढकं पचेत् ॥ ४४० ॥ मस्तुमांसरसं चुक्रं पयश्चाढकमाढकम् । दश्राढकं समायुक्तं पाचयेन्मृदुनाग्निना ॥ ४४१ ॥ द्रव्याणान्तु प्रदातव्या मात्रा चार्धपलात्मिका । तगरं चन्दनं कुष्ठं केसरं मुस्तकं त्वचम् ॥ ४४२ ॥ रास्त्रा सैन्धवपिप्पल्यां मांसीमञ्जिष्ठयष्टिकाः । जीवकर्षभकी मेदा महामेदा तथा पुनः ॥ ४४३ ॥ शतपुष्पा व्याघ्रनखं शुण्ठी देवाहमेव च । काकोली क्षीरकाकोली वचा भल्लातकं तथा ॥ ४४४ ॥ पेषयित्वा समानेतान्साधनीया प्रसारिणी । नातिपक्वं नातिहीनं सिद्धपूतं निधापयेत् ॥ ४४५ ॥ यत्र यत्र प्रदातव्यं तन्मे निगदतः शृणु । कुञ्जानामथ पंगुनां वामनानां तथैव च ॥ ४४६ ॥ यस्य शुण्यति चैकाङ्गं ये च भग्नास्थिसन्धयः ॥ ४४७ ॥ वातशोणितदुष्टानां वातोपहतचेतसाम् । श्लीपदक्षीणशुक्राणां वाजीकरणमुत्तमम् ॥ ४४८ ॥ पाने बस्तौ तथाभ्यङ्गे नस्ये चैव प्रदापयेत् । प्रयुक्तं शमयत्याशु वातजान् विविधान्गदान् ॥ ४४९ ॥

गरुडकृतुमे जड और पत्तांसहित प्रसारणको उखाड कर उसको १०० पल लेवे, पियावॉसा १०० पल, शतावर १०० पल, खिरैटी १०० पल, कौष्ठ १०० पल, असगंध १०० पल और केतकी जड १०० पल लेकर सबका चांगुने जलमे पकावे । जब पकते पकते जल चौथाई भाग शेष रह जाय तब उतारकर छान लेवे, फिर इस काथमे एक आढक परिमाण तिलका तेल, दहीका तोड एक आढक, मांसरस एक आढक, चूक एक आढक, दूध एक आढक और दही एक आढक परिमाण डाले तथा तगर, चंदन, कूठ, नागकेशर, नागरमोथा, दालचीनी, रायसन, सैंधानमक, पीपल, वालछड, मजीठ, मुलैठी, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, सौंफ, व्याघ्रनख, सोठ, देवदारु, काकोली, क्षीरकाकोली, वच और भिलावे ये प्रत्येकका दो २ तोले कलक डालकर यथाविधिसे तेलको सिद्ध करे । इसको इस प्रकार पकावे कि, जिससे यह न तो बहुत पकजाय और न कच्चा रह जाय अथान् अच्छे प्रकारसे पक जाय तब उतारकर छान लेवे । यह तेल जिन २ मनुष्योंको देना चाहिए यह कहता हूं सो सुनो-कुवडा मनुष्य, पंगु, वौना मनुष्य, जिसका एक अंग सूख गया हो, जिसका अस्थि और संधि भग्न होगई हो, जो मनुष्य वातरक्तसे या वातसे पीडित है और श्लेष्मि रोगवाले मनुष्योको यह अत्यन्त हितकारी है । जो मनुष्य वीर्यक्षीण है उनके लिये-उत्तम वाजीकरण है । इसको पान, वस्तिकर्म, अभ्यंग और तस्यकर्म इन सबमे यथा-विधि प्रयोग करना चाहिए । यह अनेक प्रकारके वातरोगोंको शमन करता है ॥ ४३९—४४९ ॥

महाप्रसारिणीतैल ।

प्रसारिणीपलशतं गुडूची सहचरं बला । एरण्डमश्वगन्धा च दशमूली शतावरी ॥ ४५० ॥ कुट्टयित्वा पलशतं साधयेत्सलिलार्भणे । चतुर्भागावशेषञ्च कषायमवतारयेत् ४५१ ॥ तैलं मांसरसं क्षीरं दाधि शुक्रं तथैव च । एतानि समभागानि द्विगुणं चाम्लकाञ्जिकम् ॥ २५२ ॥ कल्के पेष्याणि भागानि तत्रेमानि प्रदाप-

येत् । नागरातिविषामुस्तं शटी चैलांबुपत्रकम् ॥ ४५३ ॥ चन्दनं तगरं कुष्ठं पुष्कराहं ससैन्धवम् । त्र्युषणं कटुकं क्षारं मञ्जिष्ठाकटुकागुरु ॥ ४५४ ॥ शताह्वापिप्पलीमूलं मांसचिन्दनमेव च । प्रसारिणीमूलमपि जीवनीयानि यानि च ॥ ४५५ ॥ एतैस्तु पालिकैर्भागैस्तैलपात्रे विपाचयेत् । अश्वं वा वातसंभ्रं गजं वा जर्जरीकृतम् ॥ ४५६ ॥ एकाङ्गं क्षवथुं कंभपतानकमेव च । हन्यादेतान्गदान्सर्वान्महत्तयेषा प्रसारिणी ॥ बलवर्णकरी ह्येषा नित्यमात्रेयपूजिता ॥ ४५७ ॥

प्रसारिणी १०० पल, गिलोय, पियावॉसा, खिरैटी, अण्डकी जड, असगंध, दशमूल और शतावर ये प्रत्येक १००--१०० पल लेकर कूट लेवे, फिर इनको एक द्रोण जलमे पकावे । जब पकते पकते जल चौथाई भाग शेष रह जाय तब उतारकर छान लेवे । फिर इस काथमे तेल, मांसरस, दूध, दही और शुक्त यह सब समान, एक २ आढक भाग और दो भाग खट्टी कांजी, तथा सोठ, अतीस, नागरमोथा, कचूर, इलायची, सुगववाला, तेजपात, चंदन, तगर, कूठ, पोहकरमूल, सैंधानमक, त्रिकुटा, चीता, जवाखार, मजीठ, कुटकी, अगर, सोफ, पीपलामूल, वालछड, चंदन, प्रसारणीकी जड और जीवनीयगणकी रामस्त औपधिये ये प्रत्येक चार चार तोले लेकर कलक बनाकर मिला देवे । सबको यथाविधिसे मिलाकर मन्द २ अग्निके द्वारा तेलको सिद्ध करे । यह तेल घोडे और हाथियोंके दूटे हुए और जर्जर किए हुए अगोको जोडता है और वातसे पीडित मनुष्योंके लिए सदैव हितकारी है । तथा एकागवात, क्षवथु, कम्प, अपतानक इन सब रोगोंको दूर करता है, बल और वर्णको बढ़ाता है । यह महाप्रसारिणी तैल नित्य मात्रेयकरके पूजित है ॥ ४५०—४५७ ॥

गन्धहस्तीप्रसारिणीतैल ।

समूलपत्रशाखायाः प्रसारिण्याः क्षतत्रयम् । सहचरस्थ शतं द्वे च श-

तावर्यश्वगन्धयोः ॥ ४५८ ॥ गुडूच्येर-
ण्डमूलानां वानरीधुरकस्य च । पुनर्न-
वायाः केतक्याः पञ्चमूलद्वयस्य च
॥ ४५९ ॥ त्रिफलाचित्रकं बिल्वं बला-
तिबलयोरपि । शिरीषमूलं पञ्चाश-
द्रास्नादारुतदंशिके ॥ ४६० ॥ सर्वमेत-
त्सुसंक्षुद्य कटाहे समाधिक्षिपेत् । वारि-
द्रोणे शते काथ्यं दशभागस्थितेन वै
॥ ४६१ ॥ व्यक्ताम्लेनारणालेन द्रोणद्वय-
युतेन च । मस्तुक्षीरेक्षुनिर्यासछागमां-
सरसैस्तथा ॥ ४६२ ॥ आढकाढकसं-
युक्ते तथा शुक्त्याढकेन च । तैलद्रोणस-
मायुक्तं दृढे भाण्डे निधापयेत् ॥ ४६३ ॥
द्रव्याणि यानि पेप्याणि तानि व-
क्ष्याम्यतः शृणु । भल्लातकं नतं शु-
ण्ठीकृष्णाशट्यभयावचाः ॥ ४६४ ॥
बलाप्रसारिणी चैव कणामूलन्तु चोर-
कम् । लघङ्गं शतपुष्पा च सूक्ष्मैला-
त्वक च वालकम् ॥ ४६५ ॥ कुष्ठं
व्याघ्रनखं मांसी सैन्धवं मदनं वचा ।
कस्तूर्यगुरुमब्जिष्ठातुरुशकनखकुं-
कुमम् ॥ ४६६ ॥ तुम्बुरं चन्दनं पूति
कङ्कोलं त्रिसुगन्धिकम् । पद्मकोत्पल-
कालीयदार्व्यभिसितचन्दनम् ॥ ४६७ ॥
शटीरेणुकशैलेयश्रीवासं कुन्दुरुं न-
लम् । जातीकोषं वरीभीरु सरलं
पद्मकेसरम् ॥ ४६८ ॥ प्रियंगुशी-
रतगरं नलिकाजीवनं गणम् । लवङ्गं
नागपुष्पञ्च तथा कर्पूरमञ्जनम् ॥ ४६९ ॥
कटुकापूगजातीनां फलानि ताडि-
कीफलम् । भागांस्त्रिपलिकान्कृत्वा
शनेर्मृद्भिना पचेत् ॥ ४७० ॥ इष्ट-
वर्गरसस्पर्शं गंधेनापि समन्वितम् ।
स्वभागशेषं तत्सिद्धं तत्तु गुप्तं निधा-
पयेत् ॥ ४७१ ॥ पानाभ्यङ्गे तथा न-

स्ये निरूहे चानुवासने । एतद्धि वड-
वाश्वानां किशोराणां यथामृतम्
॥ ४७२ ॥ एतदेव कुमारानां कुञ्जराणां
गवामपि । वृद्धोप्येतन्नरः पीत्वा
पुनश्च तरुणो भवेत् ॥ ४७३ ॥ एते-
नैव च तैलेन शुष्यमाणा महाद्रुमाः ।
मूले सिक्ताः प्ररोहन्ति सनालच्छदप-
ल्लवाः ॥ ४७४ ॥ अप्रसूता च या नारी
सम्यक्पीत्वा प्रसूयते । अप्रजः पुरुषो
यश्च सोऽपि पीत्वा सुतं लभेत्
॥ ४७५ ॥ अशीतिर्वातजात्रोगांश्च-
त्वारिंशच्च पैत्तिकान् । विंशतिः श्ले-
ष्मिकांश्चापि संसृष्टान्सात्रिपानिका-
न् ॥ ४७६ ॥ क्षिप्रं विनाशयत्येव
तैलमेतत्प्रयोजितम् । पूर्वस्माद्दिशि-
ष्टतरं गन्धहस्तीति लक्षणम् ॥ ४७७ ॥

मूल, पत्ते और शाखासहित प्रसारिणी ३०० पल,
पियावाँसा २०० पल, गतावर २०० पल, असगन्ध
२०० पल, गिलोय, अण्डकी जड, कौष्ठ, तालम-
खाना, पुनर्नवा, केतकी, दगमूल, त्रिफला, चीता,
वेलगिरी, खिरैटी, कंधी और गिरसकी जड तथा
रास्ना और देवदारु ये प्रत्येक ५०—५० पल इन
सबको एकत्र कूटकर १०० द्रोण जलमे पकावें ।
जब पकते २ दशवाँ भाग जल शेष रह जाय तब उता-
रकर छान लेवे । फिर उसमे खट्टी काजी २ द्रोण,
दहीका तोड, दूध, ईखका रस और बकरेके मांसका
रस तथा शुक्लनामवाली काजी ये प्रत्येक एक एक
आढक और तिलका तेल १ द्रोण, तथा कलकके लिये
भिलावे, तगर, सोठ, पीपल, कचूर, हरड, वच,
खिरैटी, प्रसारिणी, पीपलामूल, अंधाहुली, लौंग, सौफ,
छोटी इलायची, दालचीनी, सुगंधवाला, कूठ, वाघ-
नख, वालछड, सैधानमक, सैनफल, वच, कस्तूरी,
अगर, मँजीठ, गिलारम, नख, केशर, तुम्बुरु,
चन्दन, खट्टाशीमुष्क, शीतलचीनी, त्रिसुगन्धी,
पद्माख, कुमुद, कलम्बक, दारुहल्दी, चीता, सफे-
द चंदन, कचूर, रेणुका, भूरिछरीला, श्रीवास, कुन्दुरु,
नली, जायफल, गतावर, वडीशतावर, सरल, कमल-
केशर, फूलप्रियंगू, खस, तगर, पतली, जीवनीय-

गणकी समस्त औषधियें, लौग, नागकेजर, कपूर, अंजन, कुटकी, सुपारी, जायफल, और ताडकाफल ये प्रत्येक औषधि तीन २ पल लेकर कल्क बनाकर मिलाकर विधिपूर्वक धीरे २ मंद् २ अग्निसे पकावे तथा इसमें उत्तम सुगंधित औषधियोंका कल्क और जल डाले जब पकते पकते केवल तेल शेष रहजाय तब उतार लेवे । इस तेलको गुमरीतिसे ढककर रख देवे । इसको पान, मालिश, नस्य, निरूहवस्ति और अनुवासन कर्ममें प्रयोग करे । यह तेल— किशोरअवस्थात्राले बालक, घोडे, घोडी तथा हाथी और गायोको अत्यंत हितकारी है, इसको बृद्धमनुष्य पीवे तो फिर तरुणकी समान होजाता है । इस तेलको सूखेहुए बृक्षोकी जडमें डालनेसे वह बृक्ष शाखा, पत्ते और फल फूल सहित हरा भरा होजाता है । जिन स्त्रियोंके सतान उत्पन्न नहीं होती उनके इस तेलके सेवन करनेसे उत्तम सन्तान उत्पन्न होती है । जिन पुरुषोंके संतान नहीं होती उनके इस तेलके सेवन करनेसे उत्तम पुत्र उत्पन्न होते हैं । अरसी प्रकारके वात, चालीस प्रकारके पित्तके रोग, वीसप्रकारके कफरोग, तथा द्रन्द्बज और सान्निपातिक इत्यादि समस्त रोगोको यह गन्धहस्तीप्रसारणी तेल अवश्य दूर करदेता है, पहले महाप्रसारिणी तेलसे विगेपतर है ॥ ४५८—४७७ ॥

अष्टादशशतक प्रसारिणीतैल ।

समूलपत्रशाखायाः प्रसारिण्याः शतत्रयम् । शतमेकं शतावर्षा अश्वगन्धाशनं तथा ॥ ४७८ ॥ केतकीनां शतत्रैकं दशमूलाच्छतं शतम् । शतं वाट्यालकस्यापि शतं सहचरस्य च ॥ ४७९ ॥ जलद्रोणशतं दत्त्वा शतभागावशेषितम् । ततस्तेन कषायेण कषायाद्विगुणेन च ॥ ४८० ॥ सुव्यक्तनारणालेन दाधिमस्त्वाढकेन च ।

क्षीरशुक्तेक्षुनिर्यासलागमां सरसेन च ॥ ४८१ ॥ तैलं द्रोणसमायुक्तं दृढे भांडे निधापयेत् । द्रव्याणि यानि पेप्याणि तानि वक्ष्याम्यतः शृणु ४८२ ॥ भल्लातकं नतं शुण्ठी चित्रकं पिप्पली शटी । वचापृक्काप्रसारिण्यः पिप्पलीभूलमेव च ॥ ४८३ ॥ देवदारुशताह्व च सूक्ष्मैलात्वक्च बालकम् । कुष्ठं व्याघ्रनखं मांसीवीरचन्दनशारिवाः ॥ ४८४ ॥ कस्तूर्यगुरुमञ्जिष्ठातुरुष्कनखकुंकुमम् । कर्पूरकुन्दुरुनिशालवङ्गध्यामसैधवम् ॥ ४८५ ॥ कंकोलनलिकामुस्ताकालीयोत्पलपत्रकम् । शटीहरेणुशैलेयश्राविसञ्चकशेरुकम् ॥ ४८६ ॥ त्रिफलाकच्छुराभीरुसरलापत्रकेसरम् । प्रियंगुशीरजलदं जीवकाद्यपुनर्नवा ॥ ४८७ ॥ दशमूलाश्वगन्धा च नागपुष्पं रसांजनम् । कटुकाजातिपूगानां फलानि सल्लक्षीरसम् ॥ ४८८ ॥ भागांस्त्रिपलिकान्दत्त्वा शनैर्मृद्भिना पचेत् । आयसे वाथ ताम्रे वा सुदृढे मृन्मयेऽपि वा ॥ ४८९ ॥ प्रयोगः षड्विधश्चापि रोगार्त्तानां विधीयते । अभ्यङ्गात्त्वग्गतं हन्तिपानात्कोष्ठगतं तथा ॥ ३९० ॥ भोजनात्सूक्ष्मनाडीस्थात्रस्यादूर्ध्वगतांस्तथा । आमाशयगते वस्तिनिरूहः सर्वकार्यिके ॥ ४९१ ॥ एतद्धि वडवाशानां किशोराणां यथामृतम् । एतदेव मनुष्याणां कुञ्जराणां गवामपि ॥ ४९२ ॥ अनेनैव च तैलेन शुष्यमाणा महाद्रुमाः । सिक्ताः पुनः प्ररोहन्ति भवन्ति फलशालिनः ॥ ४९३ ॥ बृद्धोऽप्यनेन पीतेन पुनश्च तरुणो भवेत् । अप्रसूता च या

नारी सा पीत्वाऽपि प्रसूयते ॥ ४९४ ॥
अप्रजः पुरुषो यश्च सोऽपि पीत्वा
लभेत्सुतम् । अशीतिं वातजात्रो-
गान्पैतिकान्छ्वैष्मिकानपि ॥ ३९५ ॥
सन्निपातसमुत्थांश्च नाशयेत्क्षिप्रमेव
च । एतेनांधकवृष्णीनां कृतं पुंसवनं
महत् । पुष्टिवर्णबलश्चाशु तैलमेत-
त्प्रदापयेत् ॥ ४९६ ॥

मूल, पत्र और शाखासमेत प्रसारिणी ३०० पल,
शतावर १०० पल, असगंध १०० पल, केतकी १००
पल, दशमूलकी प्रत्येक औषधि १००—१०० पल,
खिरैटी १०० पल और पियावाँसा १०० पल, इन
सबको १०० द्रोणजलमे पकावे । जब पकते २
सौवाँभाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे,
फिर इसकाथमे दुगुनी साढी कांजी, दहीका तोड
एक आढक, दूध एक आढक, शुक्तनामवाली कांजी
एक आढक, ईखका रस एक आढक, मांसरस एक
आढक और तिलका तेल एक द्रोण, तथा भिलावे,
तगर, सोठ, चीता, पीपल, कचूर, वच, असवरग,
प्रसारिणी, पीपलामूल, देवदारु, सौंफ, छोटी इलायची,
दालचीनी, सुगंधवाला, कूठ, वाघनख, वालछड,
खम, चन्दन, शारिवा, कस्तूरी, अगर, मजीठ,
त्रिलारस, नख, केगर, कपूर, कुन्दुरु, हलदी,
लौंग, रंघिसतृण सैधानमरु, ककैल, नलिका,
नागरमोथा, लाल चन्दन, कमल, तेजपत्र, कचूर,
रेणुका, भूरिछरीला, कगेरु, त्रिफला, कौछ, शतावर,
धूपसरल, कमलकेशर, फूलप्रियंगु खस, नागरमोथा,
जीवनीयगणकी औषधिये, पुनर्नवा, दशमूल, असग-
न्ध, नागकेगर, रसौत, कुटकी, जायफल, सुपारी
आर सलाईका रस ये प्रत्येक तीन २ पल लेकर
कलक बनाकर मिला देवे फिर लोहेके या ताँवेके
अथवा मिट्टीके उत्तम और दृढवर्तनेमें धीरे २ मन्द
२ अग्निसे तेलको सिद्ध करे । इसको सब रोगियो
को छ. प्रकारसे व्यवहार करावे, इसकी शरीरपर
मालिश करनेसे त्वचागत रोग दूर होते है । पीनेसे
क्रोष्ठगत रोग दूर होते है । भोजनमें प्रयोग करनेसे
सूक्ष्म नाडीगत रोग दूर होते हैं । नम्यकर्ममें
प्रयोग करनेसे ऊर्ध्वगत रोग दूर होते है । वस्ति
कर्ममें प्रयोग करनेसे आमाशयगत रोग नष्ट होतेहै

और निरूहवस्तिमें प्रयोग करनेसे सर्व शरीरगत रोग
नष्ट होते है । यह तेल—युवा, घोडे घोडियोंको
अमृतके समान है और मनुष्य, हाथी एवं गायोंको
अत्यन्त हितकारी है, इस तेलसे सूखे वृक्षोंको सींचने
से वे फिर पत्ते, फूल फलसहित होकर हरेभरे हो
जाते है । इस तेलको यदि वृद्ध मनुष्य भी पान करे
तो फिर तरुणके समान हो जाता है । जिन स्त्रियोंके
बालक उत्पन्न नहीं होते उनके इसके सेवन करनेसे
अवश्य सन्तान उत्पन्न होती है । जिन मनुष्योंके
वीर्य्यदोषके कारण सन्तान उत्पन्न नहीं होती उनके
इसके सेवन करनेसे पुत्र उत्पन्न होता है । यह तेल
अस्सीप्रकारके वातरोग, चालीस पित्तके रोग और
बीस कफके रोग तथा अन्यान्य द्वन्द्वज और साञ्जि-
पातिक रोगोंको निश्चय दूर कर देता है । इस तेलके
प्रभावसे अधिक वृष्णि नामक यादवोंके पुत्रोत्पीत्त
हुई थी । यह तेल—पुष्टि, वर्ण और बलको शी ब्रह्मी
उत्पन्न करता है ॥ ४७८—४९६ ॥

आजितप्रसारिणितैल ।

शरत्सु संपकसुजातसारप्रसारिणी-
मूलशतं विशुद्धम् । दशैव मूलानि
बलाश्वगन्धाशतावरीसाहचरं श्वदं-
ष्टा ॥ ४९७ ॥ रास्नात्मगुप्तामृतवृश्चि-
कानां शतं शतश्चापि सुकुटितं च ।
पृथक्पृथक्त्वाढकसंमितानां कुलुन्थ-
कौलांश्च यवांश्च दद्यात् ॥ ४९८ ॥
द्रोणैस्तु षड्भिर्विपचेज्जलस्य द्रोणा-
वशेषेषु पचेद्वि तत्र । तैलाढकं मां-
सरसाढकश्च दध्याढकं क्षीरचतुर्गुण-
श्च ॥ ४९९ ॥ शुक्ताढकं मूलरसाढ-
कश्च मस्त्वाढकश्चाढककाञ्जिकश्च ।
द्रव्यैः समैर्द्रवलांशिकैश्च सुसूक्ष्म-
पिष्टैर्दृषदि प्रयत्नात् ॥ ५०० ॥ रास्ना-
शताह्वाऽगुरुदारुयुक्तं मञ्जिष्ठयष्टीम-
धुकं नताब्दम् । मांसीवचासैन्धवाचि-
त्रकश्च क्षारं यवानां सरलं कृामिन्नम्
॥ ५०१ ॥ आरुष्करं पुष्करमूलकुष्ठं सपि-

प्ली पिप्पलिमूलचव्यम् । वेदायुग-
 ध्वार्षभकावुभौ च काकोलियुग्मं मरि-
 चं त्वगैलम् ॥५०२॥ शृङ्गीशठीव्याघ्रन-
 खं सचोचं स्पृक्कागजाह्वामदनं सशु-
 ण्ठी । सकेशरं चन्दनपत्रचोरं त्रिकण्ट-
 शृङ्गाटककोलकञ्च ॥५०३॥ ऋद्धिं समृ-
 द्धिं रजनीमृणालं यवान्यजाजी त्व-
 जमोदकञ्च । पञ्चाशदन्तानधिकां-
 श्वतुर्भिः क्षिप्त्वा विपाच्यं मृदुनाग्नि-
 ना च ॥५०४॥ संपूज्य विप्रान्भि-
 षजोऽवतार्य्य शान्तिं तथा स्वस्त्य-
 वधार्य्य कुम्भे । क्षिप्त्वा च संपूज्य गृ-
 हे सुगुप्ते तत्स्थापयेत्तैलवरं प्रथन्नात्
 ॥५०५॥ यान्यान्विकारान्विनिहन्ति
 युक्तं नियुज्यते यत्र यथा निबोध मे ।
 ये पङ्कवः पीठविसर्पिणश्च सङ्कोचि-
 तस्त्रायुशिराश्च कुब्जाः ॥ ५०६ ॥
 गतिप्रनष्टा विनताश्च खञ्जाः सन्ध्य-
 स्थिसंपीडितभग्रात्राः । मन्यास्तु पृष्ठे
 भुजकण्ठकट्यां स्तम्भं नृणां मारु-
 तजं निहन्ति ॥ ५०७ ॥ एकाङ्गसर्वा-
 ङ्गजमप्यशेषं वातं जयेददितशोथ-
 कंडूः । स्तम्भं जयेच्चापकृताभिधानं
 बाह्यान्तरायामहनुग्रहञ्च ॥ ५०८ ॥
 ये वातसंभ्राह्यतिजर्जिताङ्गा विश्लिष्ट-
 जान्वस्थिकटीकपालाः । सन्धिच्यु-
 ताः स्तब्धतमाः शिराश्च भवन्ति स-
 र्वेऽपि पुनर्नवास्ते ॥ ५०९ ॥ स्त्रायव-
 स्थिसन्ध्यूरुगवातशूलं शिरोभवं
 गात्रभवं निहन्ति । कर्म्मार्थार्थप्र-
 भवञ्च शूलं सर्वाङ्गमेकाङ्गमाशु ह-
 न्ति ॥ ५१० ॥ स्त्रीणाञ्च योन्युद्भव-
 स्तिशूलं वृद्धेन वातेन च रक्तजञ्च ।
 पुंसाञ्च शुक्रक्षयमागते च शूलं तथा

मेहगतं निहन्ति ॥ ५११ ॥ क्षीणेन्द्रि-
 या ये विकलाश्च गद्गदाः स्मृत्या वि-
 हीनाः पुनरुक्तवाचः । निरुद्धवाच-
 स्त्वथ कश्मला ये स्त्रियश्च याः स्युः
 प्रजया विहीनाः ॥ ५१२ ॥ दुष्टेन्द्रिया
 ये पुरुषाश्च तेषां प्रसारिणी चैव हि-
 ता क्रियास्तु । विशोधयेदार्त्तवशुक्र-
 दोषान् प्रजाकरी स्यात्स्मृतिदा प्रदि-
 ष्टा ॥ ५१३ ॥ प्रत्याध्मानाध्मानमा-
 हार्त्तिकोष्ठं जृम्भोद्धारं कर्णनादं क्षत-
 श्च । वातोन्मादं वातजापस्मृतिश्च शा-
 खावातं गृध्रसीं चापि हन्ति ॥ ५१४ ॥
 रोगाञ्जयेद्वातभवानशीतिं भिश्रांस्त-
 था वातकफोद्भवांश्च । सेवन्ति ये शू-
 लजितां प्रसारिणीमभ्यङ्गपानाश-
 ननस्यबस्तिभिः ॥ ५१५ ॥ भवन्ति
 ते चाप्यजिताः सदामयैर्विष्णुर्य-
 थाऽभूदजितः सुरारिभिः ॥ ५१६ ॥
 अजिता नामतः ख्याता वातरोगैर्न
 जीयते । क्षीणजर्जरिताङ्गानां वात-
 सङ्कोचितात्मनाम् ॥ ५१७ ॥
 प्रसारयति चाङ्गानि तेन प्रोक्ता
 प्रसारिणी । अभ्यंगैस्त्वग्गतं हन्ति पाने
 नाडीगतं तथा ॥ ५१८ ॥ भोजनेन
 तु कोष्ठस्थान्नस्येनोर्ध्वगतान्गदान् ।
 अधोगान्बस्तिदानेन सर्वान्हन्ति प्र-
 सारिणी ॥ ५१९ ॥ सकलभुवनरो-
 गानुग्रवीर्यान्निहन्ति प्रतिहतविष-
 माग्नीरूपसंपत्स्वभावः । उपचितसम्-
 गात्रः कान्तिलावण्ययुक्तो भवति च
 बलवान्वा जाठरेऽग्नौ प्रदीप्ते ॥ ५२० ॥
 तुरगजवसमः स्याद्भ्रष्टाष्टिर्वपुष्माञ्च
 श्रुतिमयूरसमः स्याद्धारयेद्विश्रुतञ्च ।
 स्मृतिमतिश्रुतियुक्तः स्पष्टवाक् स्पष्ट-

चित्तः स्फुरपटुगुणयुक्तः शुद्धशुक्लः
प्रजावान् ॥ ५२१ ॥ विषगदविनि-
हन्ता यद्वदेवादरः स्यात् पवनगद-
निहन्ता तद्वदेवाशु दृष्टिः । अमृत-
मिव सुराणां नागराजं सुधैव भव-
ति च पुरुषाणां तद्वदेतद्धि तैलम् ॥
॥ ५२२ ॥ प्रसारिण्यश्वगन्धा च नाग-
राख्या बला तथा । नित्यमार्द्रा प्रयो-
क्तव्या भागतो द्विगुणा मता ॥ ५२३ ॥

जरद्वक्तुमें पकी हुई ऐसी उत्तम प्रसारिणीकी जड १०० पल, दशमूलकी समस्त औपधिसे, खिरैटी असगंध, शतावर, पियावाँसा, गोखरू, रायसन, कौंछ, गिलोय, वृश्चिकपर्णी (विछाटी), प्रत्येक सौ २ पल, कुलथी, बेर और जौ ये प्रत्येक औपधि एक एक आठक परिमाण लेकर कूट लेवे। फिर सबको छ द्रोण जलमें पकावे। जब पकते २ जल केवल एक द्रोण शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे। फिर इस काथमें तेल एक आठक, मांसका रस एक आठक, दही एक आठक, दूध ४ आठक, शुक्तामवाली कांजी एक आठक, मूलीका रस एक आठक, दहीका तोड़ एक आठक और कांजी एक आठक इन सबको एकत्र करे तथा इसमें रायसन, सौफ, अगर, देवदारु, मजीठ, मुलैठी, महुआ, तगर, नागरमोथा, बालछड, बच, सैधानमक, चीता, जवाखार, धूपसरल, वायविडंग, भिलावे, पोहकरमूल, कूठ, पीपल, पीपलामूल, चव्य, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक काकोली, क्षीरकाकोली, कालीमिरच, दालचीनी, इलायची, काकडाशिंगी, कचूर, वाधनख, सुपारी, असवरग, गजपीपल, भैरफल, सौंठ, नागकेशर, चन्दन, तेजपात, भटेउर, गोखरू, सिघाडे, कंकोल, ऋद्धि, वृद्धि, हलदी, कमलकी ताल, अजवायन, जीरा और अजमोद ये प्रत्येक औपधि दो दो तोले लेकर कल्क बनाकर मिला देवे, फिर विधिपूर्वक मंद मंद अग्निसे तेलको पकावे। जब यह तेल सिद्ध होजाय तब वैद्य प्रथम ब्राह्मणोंकी पूजा करके तथा अन्यान्य स्वस्तिवाचक मंगल कार्य करके उत्तम गुप्त और पवित्र घरमें देवतादिका पूजन करके इस तेलको उतारकर विधिपूर्वक स्थापन करे। यह तेल जिन जिन रोगोंको दूर करता है उन उनको कहता हूँ। जो मनुष्य पंगु है

जो पीठसे खिचडते है, जिनकी स्नायु शिरा सकुच गई है, जो मनुष्य कुबडे हैं, जिनकी गमन करनेकी शक्ति नष्ट होगई है जो मनुष्य नव गये है, जो खंज है, जिनकी संधि और अस्थि दब गई हैं, जिनके गात्र दूट गये है, जिनकी मन्यानाडी, पृष्ठ, हाथ, कण्ठ और कमर जकड गई है उनके लिये यह तेल अत्यंत हितकारी है। यह सब प्रकारके वातरोगोंको दूर करता है, एवं एकांगवात, सर्वांगवात, अर्दित, मूजन, खुजली और स्तम्भवातको नष्ट करता है, वाह्य और आभ्यन्तरायाम एवं हनुग्रहको नष्ट करता है। जो मनुष्य वातकी वेदनासे पीडित है, जिनका शरीर जरासे जर्जर होगया है, जिनकी जानुकी अस्थि, कमरकी अस्थि और कपालकी अस्थि विचलित होगई है, जिनकी संधि शिथिल होगई है और जिनकी शिरा स्तब्ध होगई है वे मनुष्य इस तेलके प्रभावसे फिर नवीन अवस्थाको प्राप्त होजाते है यह तेल-स्नायु अस्थि, संधि, ऊरु, शिरोगत और शरीरगत वातशूलको नष्ट करता है। इसको यथाविधिसे व्यवहार करनेसे सर्वप्रकारके शूल, सर्वांगशूल, एकांगशूल, स्त्रियोंके योनिगतशूल, वास्तिशूल, कुपित वातजनितशूल, रुधिर-जनितशूल, पुरुषोंके शुक्रक्षयजनितशूल, मेढगतशूल, एवं जो मनुष्य क्षीणेन्द्रिय है, विकल है, जो गद्गद भाषण करते है, जिनकी स्मरण शक्ति नष्ट होगई है, जिनसे स्पष्ट नहीं बोला जाता, जो रुक रुक कर बोलते है, जो कश्मल है, जिन स्त्रियोंके सतान उत्पन्न नहीं होती, जिन मनुष्योंकी इन्द्रिये दुष्ट हैं उनके लिये यह अत्यंत हितकारक और संकुचित अंगोंको फैलानेवाला है। यह तेल-आर्त्तव और वीर्यके दोषोंको शुद्ध करनेवाला है। संतानको उत्पन्न करनेवाला और स्मरण शक्तिको बढानेवाला है। तथा प्रत्याध्मान, अजीर्णकी पीडा, कोष्ठगतपीडा, जृम्भा, उद्गार (डकार), कर्णनाद, क्षत, वातोन्माद, वातज-अपस्मार, शाखागतवात, गृध्रसीवात, अस्सी प्रकारके वातरोग, मिश्रितवातरोग, और वातकफजनित रोग इन सबको दूर करता है। जो मनुष्य शूलके जीतनेवाले इस अजितप्रसारिणीतेलको अभ्यंग, पान, भोजन नस्य और वस्तिकर्मके द्वारा लेवन करते हैं वे सदैव सब रोगोंको जीत लेते हैं। इसको 'अजित' ऐसा कहते है इसके सामने वातरोग नहीं जी सकते। जिन मनुष्योंका शरीर क्षीण और जर्जर होगया है, जिनके

वातके कारण अंग सकुच गये है उनके अंगोंको यह फैला देता है इस कारण इसको प्रसारिणी तेल कहते हैं। इस तेलकी मालिग करनेसे-त्वचाके रोग नष्ट होते हैं। पान करनेसे--नाडीगत रोग नष्ट होते हैं । भोजनमे व्यवहार करनेसे-कौष्ठगत रोग दूर होते है । नस्यकर्ममे प्रयोग करनेसे--ऊर्ध्वगत रोग नष्ट होते है। वस्तिकर्ममें प्रयोग करनेसे-अधोगत रोग नष्ट होते हैं। इस प्रकार यह प्रसारिणी तेल-सर्वप्रकारके रोगोंको दूर करता है । यह प्रसारणीतेल सम्पूर्ण संसारके रोगोंको दूर करता है, विषम अभिको ठीक करता है, रूप और स्वभावको यथा अवस्थामें स्थित करता है, सम्पूर्ण अंगोंको सुडौल, कांति और लावण्यता युक्त करता है तथा बलको उत्पन्न करता और जठराभिको दीपन करता है। यह घोडेके समान गति, गृध्रकी समान दृष्टि, मयूरके समान ज्वद और अनेक शास्त्रोंको धारण करनेका सामर्थ्य उत्पन्न करता है। इससे स्मरणशक्ति, मति और धारणाशक्तिकी वृद्धि होती है तथा वचनमे स्पष्टता और चित्तमे प्रसन्नता होती है, शरीरमें स्फूर्ति और पटुतादि गुण उत्पन्न होते हैं। उसका वीर्य शुद्ध और अनेक पुत्रोंको उत्पन्न करता है। यह तेल सर्वप्रकारके विषके विकारोंको और सर्वप्रकारके वातके विकारोंको नष्ट करता है तथा दृष्टि शक्तिको बढ़ाता है। जिस प्रकार देवताओंके लिये अमृत और नागद्रक लिये सुधा है उसी प्रकार मनुष्योंके लिये यह तेल है। प्रसारिणी, असगन्ध और गंगेरन ये सदैव गीली और भागमे दुगुनी लेनी चाहिये ॥ ४९७-५२३ ॥

रसोनतैल ।

रसोनकल्कस्वरसेन सिद्धं तैलं पचे-
द्यस्त्वनिलामयान्तः । तस्याशु नश्य-
न्ति च वातरोगा ग्रन्था विशाला
इव दुर्गृहीताः ॥ ५२४ ॥

लहसुनके कल्क और स्वरसके द्वारा तेलको सिद्ध करे । इस तेलको सेवन करनेसे सर्वप्रकारकी वातजनित पीडा और सम्पूर्ण वातके रोग नष्ट होते है ॥ ५२४ ॥

मूलकादितैल ।

वालमूलकमापीडय तैलं दध्याम्ल-
काभिकम् । क्षीरैश्चैवाढकं दद्यात्पचे-

त्कल्कैः पलोन्मितैः ॥ ५२५ ॥ रास्त्रा
भल्लातकं शिशु सैन्धवं गजपिप्पली ।
बला चातिबला शुण्ठी पिप्पली चि-
त्रकं वचा ॥ ५२६ ॥ श्वदंष्ट्रा चैति
तत्पक्वं वातश्लेष्मामयापहम् । ब्रध्म-
गृध्रसिपंगुत्वं खञ्जं वै सापतानकम् ॥
॥ ५२७ ॥ कट्यूरुस्तम्भनं शोषं पर्व-
स्तम्भप्रकम्पनम् । हन्याद्गुल्मश्च वा-
तोत्थं बलवर्णाभिवर्धनम् । वन्ध्यानां
पुत्रदश्चैव तैलमूलकसाह्वयम् ॥ ५२८ ॥

कच्ची मूलीको कुचलकर उसका रस निचोड लवे, फिर उस रसमे निलका तेल, दही, खट्टी कांजी और दूध ये सब एक एक आठक तथा रायसन, भिलावे, सईजना, सैद्यानमक, गजपीपत्र, खिरैटी, कंधी, सोठ, पीपल, चीता, वच और गोखरू; प्रत्येक औपधिका कल्क चार चार तोले लेवे, सबको यथा-विधिसे मिलाकर विधिपूर्वक तेलको सिद्ध करे । यह तेल-वात और करूके रोगोंको दूर करनेवाला है। तथा ब्रध्म गृध्रसी, पगुता, खञ्जता, अपतानक, कटि-स्तम्भ, ऊरुस्तंभ, शोष, पर्वस्तंभ, प्रकम्प और वात-जनित गुल्म इन सबको दूर करता है तथा बल, वर्ण और अभिको बढ़ानेवाला है, वन्ध्यास्त्रियोंको पुत्र देनेवाला है ॥ ५२५ ॥ ५२६ ॥ ५२७ ॥ ५२८ ॥

दशमूलादि तैल ।

दशमूलं बला रास्त्रा चाश्वगन्धा पुन-
र्नवा । गुडूच्यैरण्डपूतीकभाङ्गीवृषक-
रोहिषम् ॥ ५२९ ॥ शतावरीसहच-
राकाकनासापलोन्मिता । यवमाषा-
तसीकोलकुलत्थाः प्रसृतोन्मिताः ॥
॥ ५३० ॥ चतुर्द्रोणैः सम्भसः पक्त्वा
द्रोणशेषेण तेन तु । तैलाढकं सम-
क्षीरं जीवनीयैः पचेच्छनैः ॥ ५३१ ॥
अनुवासनमेतद्धि सर्ववातविकारनुत् ॥

दशमूल, खिरैटी, रायसन, असगन्ध, पुर्ननवा, गिलोय, अण्डकी जड, दुर्गन्धकरंज भारंगी, अइसा

रोहिसतृण, शतावर, पियावासा और कौआठोडी ये प्रत्येक औषधि चार २ तोले, जी, उडद, अलसी, बेर और कुलथी ये प्रत्येक औषधि आठ आठ तोले परिमाण, इन सबको चार द्रोण जलमे पकावे । जब पकते पकते एक द्रोण जल शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे । फिर इस काथमें एक आठक परिमाण तेल और बराबरका दूध मिलाकर तथा जीवनीय गणकी औषधियोंके कल्कके द्वारा तेलको सिद्ध करे । इस तेलको अनुवासनवस्तिके द्वारा प्रयोग करे तो सर्वप्रकारके वातविकार नष्ट होते हैं ॥ ५२९-५३१ ॥

अश्वगन्धादितैल ।

शतं पक्त्वाश्वगन्धाया जलद्रोणे-
ऽशशेषितम् । विस्त्राव्य विपचेत्तैलं
क्षीरं दत्त्वा चतुर्गुणम् ॥ ५३२ ॥ क-
ल्कैर्मृणालशालकविशकिञ्जल्कमाल-
तीः । पुष्पैर्हविरेमधुकशारिवापद्मके-
सैरः ॥ ५३३ ॥ मेदापुनर्नवाद्राक्षाम-
अष्टावृहतीद्वयैः । एलैलवालुत्रिफ-
लामुस्तचन्दनपद्मकैः ॥ ५३४ ॥ पक्वं
रक्ताश्रयं वातरक्तापित्तमसृग्दरम् ।
हन्यात्पुष्टिवलं कुय्यात्कृशानां मां-
सवर्धनम् ॥ ५३५ ॥ रेतोयोनिवि-
कारघ्नं व्रणशोथापकर्षणम् । षंठा
नपि वृषान्कुय्यात्पानाभ्यङ्गानुवा-
सनैः ॥ ५३६ ॥

उत्तम असगंध १०० पल लेकर एक द्रोण जलमे पकावे । जब पकते पकते जल चौथाई भाग शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे । फिर उस काथमें तेल १ प्रस्थ और चौगुना दूध तथा कमलकी नाल, भसीडे, कमलकंद, कमलकी केशर, मालतीके फूल, सुगंधवाला, मुलैठी, शारिवा, पद्माख, केशर, मेदा, पुनर्नवा, दाख, मजीठ, कटेरी, बडी कटेरी, इलायची, एलुआ, त्रिफला, नागरमोथा, चन्दन और पद्माख इनका कल्क डालकर विधिपूर्वक तैलको सिद्ध करे । यह तैल—रक्तवात, रक्तापित्त और रक्त-प्रदरको दूर करता है । पुष्टि और बलको बढ़ाता है । कुश-मनुष्योंके मांसको बढ़ानेवाला, शुक्र और योनि-

विकारको नष्ट करनेवाला, एवं व्रण, गोथको अप-
र्षण करनेवाला और नपुंसकोंको पुरुष बनानेवाला है ।
इसको पान, अभ्यंग और अनुवासनवस्तिके प्रयोग
करे ॥ ५३२—५३६ ॥

शतावरीतैल ।

शतावरीरसप्रस्थं क्षीरप्रस्थसमान्वि-
तम् । तैलप्रस्थं पचेदेभिः समस्तैर्गो-
मयाग्निना ॥ ५३७ ॥ शतावरी सां-
शुमती पृष्ठपर्णी बलाद्वयम् । अश्वग-
न्धा च बिल्वश्च श्वदंष्ट्रा पौडकं तथा
॥ ५३८ ॥ निष्क्राथ्य मूलमेतेषां त-
स्मिस्तैले विनिःक्षिपेत् । शतपुष्पा दे-
वदारु मांसी शैलेय कंबला ॥ ५३९ ॥
चन्दनं तगरं कुष्ठमेला चांशुमती
वचा । वृद्धिजीवककाकोलिमेदाम-
धुकमुत्पलम् ॥ ५४० ॥ सर्वमेतत्स-
माहत्य कल्कैरक्षसमन्वितैः । पाने व-
स्तौ तथाभ्यङ्गे, नस्ये चैव प्रदापये-
त् ॥ ५४१ ॥ अङ्गशूलं शिरःशूलं
मेहदण्डापतानकम् । वातरक्तं सदा-
हश्च वातपित्तार्दितं गदम् ॥ ५४२ ॥
शोथपाण्ड्यामयप्लीहकामलागरगृध्रसीः ।
योनिशूलमसृग्दोषमाध्मानं विनिह-
न्ति च ॥ ५४३ ॥ क्षीणशुक्राजसां पुंसां
शस्तं वन्ध्यासुतप्रदम् । शतावरीतैल-
मिदं कृष्णात्रेयेण पूजितम् ॥ ५४४ ॥

शतावरका रस १ प्रस्थ, दूध १ प्रस्थ और उत्तम
तिलका तेल १ प्रस्थ इन सबको एकत्र करके इनमे
शतावर, पृश्निपर्णी, खिरैटी, शालिपर्णी, कंधी, असगंध,
बेलगिरी, गोखरू और ईख इन सबका काढा और
सौफ, देवदारु, बालछड, भूरिछरीला, खिरैटी,
चन्दन, तगर, कूठ, इलायची, शालिपर्णी, वच, वृद्धि,
जीवक, काकोली, मेदा, मुलैठी और कमल, प्रत्येक
औषधिका कल्क दो दो तोले डालकर उत्तम विधिसे
तेलको आरनेउपलोकी अत्रिके द्वारा पकावे । इस
तेलको पान, वस्ति, अभ्यंग और नस्यकर्म्ममे प्रयोग करे ।

यह तेल—अंगशूल, शिरःशूल, प्रमेह, दण्डापतानक, दाहयुक्तवातरक्त, वातपित्तजनितरोग, सूजन, पांडुरोग, ग्रीहा, कामला, विषदोष, गृध्रसी, योनिशूल, रुधिरविकार और अफारेको दूर करता है । यह तेल क्षीणशुक्र और क्षीणओजवाले मनुष्योंको अत्यंत हितकारी है और बंध्या स्त्रियोंके पुत्रको उत्पन्न करनेवाला है । यह शतावरी तेल—कृष्णात्रैथकरके पूजित है ॥ ५३७—५४४ ॥

पथ्य ।

सर्पिस्तैलवसामज्जापानाभ्यञ्जनव-
स्तीयः । स्वेदोऽग्निना निवातश्च स्था-
नं प्रावरणानि च ॥ ५४५ ॥ रसः प-
यांसि भोज्यानि स्वाद्मल्लवणानि
च । बृंहणं यच्च तत्सर्वं प्रशस्तं वात-
रोगिणाम् ॥ ५४६ ॥

घी, तेल, वसा और मज्जा इनको पान, अभ्य-
ञ्जन और वस्तिकर्ममें प्रयोग करना । अग्निके द्वारा
स्वेद देना, वातरहित स्थानका सेवन और अनेक
प्रकारके उष्णआवरण गर्म कपडे ओढना, मांसरस,
दूधका भोजन, मधुर, अम्ल और लवण रसवाले
पदार्थ और पुष्टिकारक पदार्थ ये सब वातरोगमें हित-
कारक हैं ॥ ५४५ ॥ ५४६ ॥

साध्यासाध्य ।

हनुस्तम्भादिताक्षपपक्षाघातापतान-
नकाः । कालेन महता वाता यत्ना-
त्सिद्धयन्ति वा न वा ॥ ५४७ ॥ न-
वान्बलवतश्चेतान्साधयेन्निरुपद्रवान्
॥ ५४८ ॥ विसर्पदाहरुक्सङ्गमूर्च्छा-
रुच्यग्निमार्दवैः । क्षीणमांसबलं
वाता हन्युः पक्षवधादयः ॥ ५४९ ॥
क्षीणं सुप्तत्वचं भयं कम्पाध्माननि-
पीडितम् । रुजात्तिमन्तश्च नरं वा-
तव्याधिर्विनाशयेत् ॥ ५५० ॥ अ-
व्याहतगतिर्यस्य स्थानस्थाः प्रकृ-
तिस्थिताः । वायुः स्यात्सोऽधिकं
जीवेद्धीनरोगः समाः शतम् ॥ ५५१ ॥

हनुस्तम्भ, अर्दित, आक्षेपक, पक्षाघात और अप-
तानक ये रोग बहुत दिनोंमें धनवान्के बडे परिश्रम
और यत्नोंसे साध्य होते हैं अथवा नहीं भी होते हैं ।
परन्तु थोडे दिनोंके उत्पन्न हुए और उपद्रवरहित
बलवान् मनुष्योंके हुए हों तो चिकित्सा करनी
चाहिये । विसर्प, दाह, वेदना, मलमूत्रका अवरोध,
मूर्च्छा, अरुचि और मन्दाग्नि, इन सब उपद्रवोंसे
युक्त पक्षाघातादि वातरोग, कृश और दुर्बल मनु-
ष्योंका नाश करते हैं । क्षीण, जिसका स्पर्शज्ञान नष्ट
होगया हो, जिसकी अस्थि भंग होगई हों, कम्प
और आध्मानसे दुःखित, पीडायुक्त ऐसे मनुष्योंको
यह वातरोग नष्ट करदेता है । जिसके शरीरमें रह-
नेवाली वायु दूषित नहीं हुई हो, यथास्थानमें अव-
स्थित हो, जिसकी गति न रुके वह मनुष्य नीरोगी
होकर एकसौ वर्षतक जीता रहता है ॥ ५४७—५५१ ॥

अर्दितरोगका निदान ।

—❖❖❖❖—

उच्चैर्व्याहरतोऽत्यर्थं खादतः कठि-
नानि च । हसतो जृम्भतो भाराद्वि-
षमाच्छयनासनात् ॥ ५५२ ॥ शिरो-
नासौष्ठुचिबुकललाटेक्षणसन्धिगः ।
अर्दयत्यनिलो वक्रमर्दितं जनयत्य-
तः ॥ ५५३ ॥ वक्रीभवति वक्रोर्ध्वं
श्रीवाश्चाप्यपवर्तते । शिरश्चलति
वाक्सङ्गो नेत्रादीनाश्च वैकृतम् ॥ ५५४ ॥
श्रीवाचिबुकदन्तानां तस्मिन्पार्श्वे
च वेदना । तमर्दितमिति प्राहुर्व्या-
धिं व्याधिविचक्षणाः ॥ ५५५ ॥

ऊचे स्वरसे पढनेसे या बोलनेसे सुपारी आदि
कठिन पदार्थोंके खानेसे, बहुत जोरसे हँसनेसे, बहुत
जंभाई लेनेसे, बोलनेके ढोनेसे, विषमस्थानमें शयन कर-
नेसे और विषम (टेढे, तिरछे होकर) बैठनेसे
मस्तक, नासिका, होठ, ठोडी, ललाट और नेत्रोंकी
संधियोंमें रहनेवाली वायु कुपित होकर एक ओरके
मुखको टेढा करके अर्दितरोगको उत्पन्न करती है ।
इसमें आवा मुख टेढा होजाता है, गर्दन मुडती नहीं,

शिर हिलने लगता है, बोला नहीं जाता, नेत्र आदि विकृत होजाते हैं । जिस अंगकी ओर उसी ओरकी गर्दन टेढ़ी तथा ठोड़ी और दांतेमे दर्द होता है रोगके ज्ञाता विद्वान् वैद्य उसको अर्दितरोग कहते हैं ॥५५२-५५५ ॥

वातार्दितके लक्षण ।

वातात्पित्तात्कफाच्च स्यात्रिविधः
स समासतः । लालास्रावो व्यथा
कम्पः स्मरणं वाग्धनुग्रहः । ओष्ठ-
योः श्वयथुः शूलमर्दिते वातजे भ-
वेत् ॥ ५५६ ॥

अर्दितरोग वातज, पित्तज और कफज इन भेदोसे तीन प्रकारका है । वातजनित अर्दितरोगमे मुखसे लारका गिरना, शरीरमे पीडा, कम्प, अंगोका फडकना, वाणी और ठोड़ीका जकडना, होठोंमें सूजन और शूल होता है ॥ ५५६ ॥

पित्तजनित अर्दितके लक्षण ।

पीतमास्यं ज्वरस्तृण्णा पित्तजे मो-
हधूपने ।

पित्तजनित अर्दितरोगमे मुखपर पीलापन, ज्वर, तृषा, मोह और धुआसा होता है ॥

कफजनित अर्दितके लक्षण ।

गण्डे शिरसि मन्यायां शोफः स्त-
म्भः कफात्मके ॥ ५५७ ॥

कफजनित अर्दितरोगमे गण्डस्थल, शिर, मन्या-
नाडीमें सूजन और स्तम्भ होता है ॥ ५५७ ॥

मिश्रित अर्दितके लक्षण ।

भाविनो लक्षणं तस्य वेपथुर्नेत्रमावि-
लम् ॥ ५५८ ॥

मिश्रित अर्दितरोगमे उन्हीं उन्हीं दोषोंके लक्षण
होते है, तथा सूजन और नेत्रोंमे गदलापन होता है ५५८

असाध्यलक्षण ।

क्षीणस्यानिमिषाक्षस्य प्रशस्ताव्य-
क्तभाषिणः । न सिध्यत्यर्दितं गाढं
त्रिवर्षं वेपनस्य च ॥ ५५९ ॥

जो मनुष्य अत्यंत क्षीण होगया हो, जो स्पष्टरूपसे नहीं बोलसके, जिसके आँखोंके पलक नहीं लगते, रोगको उत्पन्न हुए तीन वर्ष वाँत चुके हो अथवा नाक, मुख और नेत्रोंमेसे पानी स्रवता हो, कांपता हो वह अर्दितरोगी असाध्य जानना ॥ ५५९ ॥

अर्दितरोगकी चिकित्सा ।

स्नेहपानानि नस्यश्च भोज्यान्यनिल-
हानि च । उपनाहाश्च शस्यन्ते स्वेदनं
बस्तयो हिताः ॥ ५६० ॥

अर्दितरोगमें प्रथम स्नेहपान, नस्य, वातनाशक भोजन, उपनाह, स्वेदन और बस्तिकर्म ये सब हितकारी है ॥ ५६० ॥

दशमूलीकषायेण मातुलुङ्गरसेन च ।
बलायाः पञ्चमूल्या वा क्षीरं वाता-
त्मके हितम् ॥ ५६१ ॥

वातजनित अर्दितरोगमे दशमूलके काथके साथ अथवा विजौरै नींबूके रसके साथ या खिरँटीके काथके साथ अथवा पंचमूलके काथके साथ दूधको पीवे ॥ ५६१ ॥

माषपिष्टकृतं जग्ध्वा नवनीतेन सोऽ-
र्दिती । क्षीरं मांसरसैर्भुक्त्वा दशमू-
लीरसं पिबेत् ॥ ५६२ ॥

उडकी पिट्टीको नैनीधीके साथ खाना अथवा मांसके रसके साथ दूधको या केवल दशमूलके काथको पीना ये अर्दितरोगमे हितकारी है ॥ ५६२ ॥

वत्तावभ्यंगनस्ये च स्वेदयेत्तत्परः
पुमान् । पिबेदुपरि भुक्त्वाज्यमर्दितं
स व्यपोहति ॥ ५६३ ॥

अर्दितरोगमे प्रथम बस्तिकर्म, अभ्यंग, नस्य और स्वेद देवे । पश्चात् ऊपरसे घीके साथ भोजन करे इससे अर्दित रोग दूर होता है ॥ ५६३ ॥

अर्दिते पित्तजे शीतान्त्रेहार्थैव वि-
निर्दिशेत् । घृतवस्तिप्रसेकञ्च क्षीर-
सेकं तथैव च ॥ ५६४ ॥

पित्तजनित अर्दितरोगमें शीतल स्नेह प्रयोग करे,
तथा घृतके द्वारा वस्तिकर्म, प्रसेक और दूधके द्वारा
सीचना ये सब हितकारक हैं ॥ ५६४ ॥

जिह्वाभूताननो मूको दाहवान्योऽ-
र्दिती भवेत् । कुय्यात्प्रतिक्रियां तस्य
वातपित्तविनाशिनीम् ॥ ५६५ ॥

अर्दितरोगमें जो रोगीका मुख टेढा होगया हो
और वह गूंगा होजाय तथा दाह हो तो उसकी वात-
पित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ५६५ ॥

शिरसो रेचनं कार्य्यं द्रव्यैः पित्तह-
रैस्तथा । सतीक्ष्णनस्यपानेन पुराण-
स्यैव सर्पिषः ॥ ५६६ ॥

पित्तनाशक द्रव्योंके द्वारा शिरोविरेचन अर्थात्
नस्य देवे तथा पुराने घृतको नासिकाके द्वारा पान
करावे और तक्षिण नस्य देवे ॥ ५६६ ॥

श्लेष्मभागे क्षयं नीते बृहणस्समुपाच-
रेत् । अर्दिते शोथसंयुक्ते वमनं सं-
प्रशस्यते ॥ ५६७ ॥

अर्दितरोगमें कफके क्षीण होनेपर पुष्टिकारक उप-
चार करे । सूजनयुक्त अर्दितरोगमें वमन कराना हित-
कारक है ॥ ५६७ ॥

दाहेन च समायुक्ते शिरसा रक्तमो-
क्षणम् ॥ ५६८ ॥

दाहयुक्त अर्दितरोगमें शिरमेंसे रुधिर निकल-
वावे ॥ ५६८ ॥

रसोनकल्कं तिलतैलमिश्रं खादेन्नरो
योऽर्दितरोगयुक्तः । तस्यार्दितं नाश-
मुपैति शीघ्रं वृन्दं घनानामिव वायु-
वेगात् ॥ ५६९ ॥

लगुनेके कल्कको तिलोंके तेलमें मिलाकर खानेसे
अर्दितरोग शीघ्रही नष्ट होजाता है, जिसप्रकार वायुके
वेगसे बादलोका समूह नष्ट हो जाता है ॥ ५६९ ॥

दशमूलादि तैल ।

दशमूलरसक्षीरजीवनीयविपाचि-
तम् । तैलं हन्यर्दितं नस्यपानाभ्य-
ङ्गानुवासनैः ॥ ५७० ॥

दशमूलके काथमें दूध और जीवनीयगणकी औष-
धियोंका कल्क डालकर तैलको पकावे । इस तैलको
नस्य, पान, अभ्यग और अनुवासन वस्तिके द्वारा
प्रयोग करे तो अर्दितरोग नष्ट होता है ॥ ५७० ॥

क्षीरतैल ।

सतृणमहापञ्चमूलमाहृत्य, द्विगु-
णोदके क्षीरे निष्काथ्य, क्षीराव-
शिष्टमवतार्य्य, विस्त्राव्य तैलप्रस्थेन
सहोन्मिश्र्य पुनरग्रावधिभृत्य,
विपाचयेत् । ततस्तैलानुगतमवता-
र्य्य, शीतीभूतमश्रीयात्, तदैतत्
क्षीरतैलमर्दितानां पानादिषु प्रयो-
ज्यम् । इति क्षीरतैलम् ॥

अब क्षीरतैल बनानेकी विधि कहते हैं--तृणमहा-
पञ्चमूल लेकर दुगुने जल और दूधसे पकावे । जब
पकते २ केवल दूध मात्र बाकी रहजाय तब उतारकर
छान लेवे । फिर इसमें एक प्रस्थ तिलका तेल डाल-
कर चूल्हेपै चढाकर पकावे, जब पकते २ केवल तेल
बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेवे, जब स्वयं
शीतल होजाय तब इस क्षीरतैलको अर्दित रोगियोंके
पानादिकमें प्रयोग करना चाहिए ॥

वातव्याधिविधानमिह कुय्याद्वि-
चक्षणः ।

इस अर्दितरोगमें वैद्यको उचित है कि, वातव्याधिमें
जो विधान कहा है वह सब इसमें भी प्रयोग करे ।

गृध्रसीनिदान ।

स्फिक्पायूरुकटीपृष्ठजालुजङ्घापदं क्र-
मात् । गृध्रसीस्तम्भरुकतोदैर्गृह्णाति
स्पन्दते मुहुः । वाताद्वातबलासाभ्यां
विज्ञेया सा द्विधा पुनः ॥ ५७१ ॥

कुपित हुई वायु-स्फिक् (कूला), गुदा, ऊरु, कमर,
पीठ, जानु, जंघा और पांव इनको क्रमसे स्तम्भित
करदे, अर्थात् इन सबको जकड देवे, इसमें तोडनेस-
रीखी पीडा, स्तम्भ और भयंकर वेदना हो तथा वारं-
वार कंप हो तो उसको गृध्रसी कहते हैं । यह गृध्रसी
रोग वानिक और वातकफज ऐसे दो प्रकारका
है ॥ ५७१ ॥

वातज गृध्रसीके लक्षण ।

वातजायां भवेत्तोदो देहस्यातीव
वक्रता । जानुजङ्घोरुसन्धीनां स्फु-
रणं स्तब्धता भृशम् ॥ ५७२ ॥

वातजनित गृध्रसी रोगमें-शरीरमें तोडनेसरीखी
पीडा, देहका टेढापन, तथा जानु, जंघा और ऊरु
इनकी सन्धियोंमें स्फुरण (फडकना) और जकडना
होती है ॥ ५७२ ॥

वातकफजनित गृध्रसीके लक्षण ।

वानश्लेष्मोद्भवायान्तु स्तैमित्यं वह्नि-
मार्दवम् । तन्द्रामुखप्रसेकश्च भक्तद्वे-
षस्तथैव च ॥ ५७३ ॥

वातकफजनित गृध्रसीरोगमें शरीर भीजासा रहे।
अग्निकी मन्दता, तन्द्रा, मुखसे पानीका गिरना और
भोजनमें अरुचि ये सब लक्षण होते हैं ॥ ५७३ ॥

गृध्रसीचिकित्सा ।

सर्वत्राकर्षणं कुर्याद्भक्षदीपनपाचनम् ।
तप्ततेलेष्टकास्वेदमर्दनं चोपनाहनम् ॥
॥ ५७४ ॥ गृध्रस्यानन्तरं सम्यग्रेकेन
वमनेन वा । ज्ञात्वा निरामदीप्तार्थिं
वास्तिभिः समुपाचरेत् ॥ ५७५ ॥

गृध्रसीरोगमें-प्रथम सर्वत्र कर्षण चिकित्सा करे,
तथा रूक्ष, दीपन और पाचन औषधियोंके द्वारा
उपचार करे। एवं गरम तेल, इष्टका स्वेद, मर्दन और
उपनाहन कर्म करे । गृध्रसीरोगमें अच्छेप्रकारसे
प्रथम रोगीको विरेचन और वमन देवे । जब विरेचन
और वमन देनेसे शुद्ध होकर आमरहित हो जाय
तथा अग्नि दीपन होजाय तो वास्ति प्रयोग करे ॥
॥ ५७४ ॥ ५७५ ॥

नादौ बस्तिविधिं कुर्याद्यावदूर्ध्वं
न शुद्ध्यति । स्नेहो निरर्थकस्तस्य
भस्मन्येव हुतं यथा ॥ ५७६ ॥

जबतक गृध्रसीरोगमें ऊर्ध्वभाग शुद्ध न होजाय
तबतक वास्तिकर्म न करे, क्योंकि स्नेह व्यर्थ जाता
है जैसे कि भस्ममें किया हुआ हवन व्यर्थ होता
है ॥ ५७६ ॥

दशमूलकी औषधि ।

दशमूलीबलारास्त्रागुडूचीविश्वभेषज-
म् । पिवेद्देरण्डतैलेन गृध्रसीखञ्जपं-
गुम् ॥ ५७७ ॥

दशमूल, खिरैटी, रायसन, गिलोय और सोठ,
इनका काथ बनाकर उसमें अंडकी तेल डालकर पान
करनेसे गृध्रसी, खंजता और पंगुता दूर होती
है ॥ ५७७ ॥

पञ्चमूलीकषायन्तु सुखोष्णं त्रिवृता-
युतम् । गृध्रसीं गुल्मशूलञ्च सद्यः
पीतं नियच्छति ॥ ५७८ ॥

पंचमूलके मंदोष्णकाथमें निशोधका चूर्ण डालकर
सुहाता २ पान करनेसे गृध्रसी वायु और गुल्मशूल
तत्काल नष्ट होजाता है ॥ ५७८ ॥

द्वित्रिस्थानेषु गृध्रस्यां शिरां प्रच्छ-
न्नवेधिताम् । गुञ्जाकल्केन लिप्त्वा च
सद्यस्त्यजति वेदनाम् ॥ ५७९ ॥

गृध्रसीरोगमें दो तीन जगह अप्रकट रीतिसे शिरा-
वेध करे फिर उसपर चाटलीके कल्कका लेप कर
देवे तो तत्काल वेदना दूर होजाती है ॥ ५७९ ॥

यद्येवं तथापि ग्रन्थान्तरमवलोक-
नीयम् ।

यद्यपि यह लिखा भी है तथापि अनेक ग्रन्थान्तरोंके मतको अवश्य देखना चाहिये ।

तैलमेरण्डजं वापि गोमूत्रेण पिवे-
त्ररः । मासमेकं प्रयोगोऽयं गृध्रस्यूरु-
ग्रहापहः ॥ ५८० ॥

अंडीके तेलको गोमूत्रके साथ एक महीनेतक पीवे
तो गृध्रसी और ऊरुग्रह रोग दूर होता है ॥ ५८० ॥

तैलं घृतं सार्द्रकमातुलुङ्गं रसं सचुक्रं
सगुडं पिवेद्वा । कट्यूरुपृष्ठत्रिकगुल्म-
शूलं गृध्रस्युदावर्त्तहरः प्रयोगः ॥ ५८१ ॥

तेल और घीको अदरखके रसके साथ या विजैरे
नींबूके रसके साथ या चूकेके साथ अथवा गुडके
साथ पान करे तो कटि, ऊरु, पृष्ठ, त्रिकशूल, गुल्म-
शूल, गृध्रसी और उदावर्त यह सब रोग दूर होते
हैं ॥ ५८१ ॥

विशोध्यैरण्डबीजानि पिष्ट्वा क्षीरे
विपाचयेत् । तत्पायसं कटीशूले
गृध्रस्यां परमौषधम् ॥ ५८२ ॥

शुद्ध अंडके बीजोंको पीस कर दूधमें पकावे। यह
खीर-कटिशूल और गृध्रसीरोगकी परम औषधि
है ॥ ५८२ ॥

पञ्चमूलीकषायन्तु रुडुतैलत्रिवृद्युतम् ।
गृध्रसीगुल्मशूलञ्च पतिं सद्यो निय-
च्छति ॥ ५८३ ॥

पंचमूलके काथको अंडीके तेल और निसोथके
चूर्णके साथ सेवन करे तो तत्काल गृध्रसी और
गुल्मशूल नष्ट होजाता है ॥ ५८३ ॥

भेषशृङ्गीविडङ्गानि श्वदंष्ट्रा चाश्वग-
न्धजम् । एरण्डमूलबिल्वञ्च बृहती
कण्टकारिका ॥ ५८४ ॥ कपायो रुडु-
कोपेतः पीतो बद्धक्षणावस्तिजम् । शूलं
गृध्रसीजं हन्ति चिरकालानुबन्धि
वा ॥ ५८५ ॥

मेढाशिगी, वायविडंग, गोखरू, असगंध, अंडकी
जड, बेल, बड़ी कटेरी और छोटी कटेरी इनके
काथमें अंडीका तेल डाल कर पीनेसे बद्धक्षणाशूल,

वस्तिशूल और बहुत दिनाका पुराना गृध्रसीशूल
नष्ट होता है ॥ ५८४ ॥ ५८५ ॥

गोमूत्रैरण्डतैलाभ्यां कृष्णा पीता
सुचूर्णिता । दीर्घकालोत्थितां हन्ति
गृध्रसीं कफवातजाम् ॥ ५८६ ॥

पीपलके चूर्णको गोमूत्र और अंडीके तेलके साथ
सेवन करनेसे बहुत दिनोंकी पुरानी कफवातजनित
गृध्रसी दूर होती है ॥ ५८६ ॥

सिंहास्यशुण्ठीकृतमालकानां पिवे-
त्कषायं रुडुतैलामिश्रम् । यो गृध्रसी-
नष्टगतिश्च सुप्तः स वीतरुक् स्यात्तु
किमत्र चित्रम् ॥ ५८७ ॥

वासा, सोंठ और अमलतास इनके काथमें अंडी
का तेल मिला कर पान करनेसे जो गृध्रसी रोगसे
पीडित हैं, जिनकी गति नष्ट होगई है और जिनके
अंग सुन्न होगये हैं उनकी पीडा दूर होकर निरोग
हो जाते हैं ॥ ५८७ ॥

अश्राति यो नरः सिद्धामेरण्डफल-
मिश्रिताम् । यवागूं गृध्रसीस्विन्नः
पूर्वामाप्नोत्यसौ गतिम् ॥ ५८८ ॥

जो मनुष्य अंडीके फलोंके साथ यवागूको सिद्ध
करके सेवन करता है तो गृध्रसीरोगसे पीडित वह
मनुष्य पहलेके समान गतिको प्राप्त होता है ॥ ५८८ ॥

बृहन्निम्बंतरोमूलं वारिणा परिपेषि-
तम् । पीतस्तत्राशयेत्क्षिप्रमसाध्या-
मपि गृध्रसीम् ॥ ५८९ ॥

बकायनकी जडको जलमें पीस कर पान करनेसे
असाध्य भी गृध्रसीरोग अवश्य नष्ट हो जाता
है ॥ ५८९ ॥

शेफालिकादलैः काथो मृद्भिपरि-
पाचितः । दुर्वारं गृध्रसीरोगं पीतमा-
त्रश्च संहरेत् ॥ ५९० ॥

शेफालिका (हारशिंमार) के पत्तोंका मंद मंद
अग्निसे काथ बना कर पान करनेसे ही दुर्निवार गृध्रसी
रोग पीते ही नष्ट हो जाता है ॥ ५९० ॥

तगरस्य शिफामार्द्रां पिष्ट्वा तक्रेण
यः पिबेत् । रिङ्गणानिलरोगस्तु
तत्क्षणादेव नश्यति ॥ ५९१ ॥

तगरकी गीली जडको तक्रके साथ पीसकर
सेवन करनेसे तत्काल ही रींगन वायु दूर होती
है ॥ ५९१ ॥

शुण्ठीगन्धर्वबीजाभ्यां पिष्ट्वाभ्यां
पायसं पचेत् । भक्षितं तत्कटीशूलं
गृध्रसीं हन्त्यसंशयम् ॥ ५९२ ॥

सोठ और अंडके बीज इनको एकत्र पीसकर
दूधसे खीर पकावे । इस खीरका सेवन करनेसे कटि-
शूल और गृध्रसी रोग तत्काल दूर होता है ॥ ५९२ ॥

वापनादिक्रियायोगैर्यादि शान्तिं न
याति सा । तदा कर्त्तव्यमेतत्तु व्य-
धनादिचिकित्सकैः ॥ ५९३ ॥

इन उपरोक्त लेपन, अभ्यंग, औषधिसेवन आदि
क्रियाओंसे गृध्रसीरोग नष्ट न हो तो शिरावेध
दाहादिके द्वारा चिकित्सा करे ॥ ५९३ ॥

गृध्रस्यार्त्तस्य जङ्घायां स्नेहस्वेदे कृते
भिषक् । पद्भ्यां समर्दितायाश्च सूक्ष्म-
मार्गेण गृध्रसीम् ॥ ५९४ ॥ अवता-
र्यागुलौ सम्यक् कनिष्ठायां शनैः
शनैः । ज्ञात्वा समुद्रतां ग्रन्थि कण्ड-
रायां व्यधेच्छिराम् ॥ ५९५ ॥ तां
शस्त्रेण विदार्याशु सवालं कुरसन्नि-
भाम् । समुद्रत्याग्निना दग्ध्वा लिम्पे-
द्यष्ट्याह्वचन्दनैः ॥ ५९६ ॥ विध्या-
च्छिरामेव बस्तेरधस्ताच्चतुरंगुले ।
यदि नोपशमं गच्छेद्देहत्पादकनिष्ठी-
काम् ॥ ५९७ ॥

गृध्रसीरोगसे पीडित मनुष्यकी जघाओंको घृत
तैलादिकसे अच्छे प्रकारसे स्वेदित कर पांवोंतक मर्दन
कर सूक्ष्म मार्गसे गृध्रसी वायुको कनिष्ठिका अंगुली
में धीरे २ उत्तर कर आई हुई गांठको अच्छे प्रकार
ऊंची समझ शीघ्र ही उसको शस्त्रसे काट देवे और

उससे अंकुरके समान छोटे पदार्थको निकाल देवे
और तत्काल उसको अग्निसं दग्ध करके मुलैठी
और चंदनको एकत्र पीस कर लेप कर देवे । घस्तिके
चार अंगुल नीचे शिराको वेधे जो इस प्रकार करनेसे
गृध्रसीका गमन नहीं हो तो पांवकी कनिष्ठ अंगुलीको
दग्ध करे ॥ ५९४ ॥ ५९५ ॥ ५९६ ॥ ५९७ ॥

रास्नायास्तु पलश्वैकं पञ्चकर्षाणि
गुग्गुलोः । सर्पिषा वटिकां कृत्वा
खादेद्रा गृध्रसीहराम् ॥ ५९८ ॥

रास्ना चार तोले और गुग्गुल पांच तोले दोनोंको
एकत्र धीमे पीस कर गोली बना लेवे । इन गोलियोंको
सेवन करनेसे गृध्रसीरोग दूर होता है ॥ ५९८ ॥

पथ्यादिगुग्गुलु ।

पथ्याविभीतामलकीफलानां शतं
क्रमेण द्विगुणाभिवृद्धम् । प्रस्थेन
युक्तञ्च पलंकषाणां द्रोणे जले संस्थि-
तमेकरात्रम् ॥ ५९९ ॥ अर्द्धावशेषं
कथितं कषायं भाण्डे पचेत्तत्पुनरेव
लौहे । अमूनि पश्चादवतार्य्य दद्याद्द्र-
व्याणि संचूर्ण्य पलाद्धकानि ॥ ६०० ॥
विडङ्गदन्तीत्रिफलागुडूचीकृष्णात्रि-
वृत्रागरकोषणानि । यथेष्टचेष्टस्य नर-
स्य शीघ्रं हिमाम्बुपानानि च भोज-
नानि ॥ ६०१ ॥ निषेव्यमाणो विनि-
हन्ति रोगांस्तद्व्याधितान्गृध्रसिख-
ञ्जितांश्च । प्लीहानमुग्रं जठराणि गुल्मं
पाण्डुत्वकण्डूमपि वातरक्तम् ॥ ६०२ ॥
पथ्याह्वयो गुग्गुलुरेष नाम्ना ख्यातः
क्षितौ चाप्रामितप्रभावः । बलेन
नगेन्द्रबलं मनुष्यं जवेन कुर्याद्भयतु-
ल्यवेगम् ॥ ६०३ ॥ आयुःप्रकर्षं विद-
धाति सद्यश्चक्षुर्बलं पुष्टिकरो विषघ्नः ।
क्षतस्य सन्धानकरो विशेषा-
द्रोगेषु शस्तः सकलेषु चैव ॥ ६०४ ॥

हरड १००, वहेडे २००, आमले ४००, और गूगल ६४ तोले लेवे, - इन सबको एकत्र एक द्रोण जलमें एक रात्रिभर रक्खा रहने देवे, फिर प्रातःकाल पकावे । जब पकते पकते जल आधा बाकी रह जाय तब उतार कर छान लेवे, फिर इस काथको उत्तम लोहेके वासनमें करके पकावे और इसमें वायाविडग, दती, त्रिफला, गिलोय, पीपल, निसोत, सोठ और काली मिरच ये प्रत्येक दो दो तोले डाल देवे । स्वयं शीतल होनेपर इसको उत्तम घाके चिकने वासनमें करके रख देवे । इसको सेवन करनेवाला मनुष्य इच्छानुसार आहार विहार करे तथा विशेष कर शीतल अन्नपान सेवन करे । इसको सेवन करनेसे सर्व प्रकारकी वातव्याधि, गृध्रसीरोग, खंजता, प्लोहा, उग्र उदररोग, गुल्मरोग, पांडुरोग, कण्ठ और वात-रक्तादि रोग दूर होते हैं । यह 'पथ्यादिगुग्गुलु' इस नामसे पृथ्वामे प्रसिद्ध है । यह अमृत प्रभाव-वाला है । इसका सेवन करनेवाला मनुष्य बलमें हाथीके समान और वेगमें घोड़ेके समान होजाता है । यह गूगल अवस्थाको बढ़ानेवाला, नेत्रोंकी उद्योतिको बढ़ानेवाला, पुष्टिको उत्पन्न करनेवाला, विपकी नष्ट करनेवाला, विशेष कर व्रणको भरनेवाला और सब प्रकारके रोगोंमें उपकारी है ॥ ५९९—६०४ ॥

लशुनादिवृत ।

पचेद्वृताढकं काथे लशुनस्याढको-
द्भवे । कर्ष चव्याप्रिकृष्णानां पलिके
विश्वहिं गुनी ॥ ६०५ ॥ लवणांश्च
पृथक् पिष्ट्वा पलाद्धं चाम्लवेतसम् ।
गृध्रसीवानरुग्गुल्मपक्षाघातनिवार-
णम् ॥ ६०६ ॥

लशुनका काथ एक आढक, उत्तम घा एक आढक तथा चव्य, चीता, पीपल, एक २ कर्ष, सोठ, हीग एक २ पल, सैधा नमक और अमलवेत आधा २ पल सबको एकत्र पीसकर यथाविधिसे घृतको सिद्ध करे । यह घृत-गृध्रसी, वात, गुल्म और पक्षाघातको नष्ट करता है ॥ ६०५ ॥ ६०६ ॥

अश्वगन्धातैल ।

वाजिगन्धावलाविल्वदशमूलाम्बुसा-

धितम् । गृध्रस्यां तैलमेरण्ड परं वस्तौ
प्रयोजयेत् ॥ ६०७ ॥

असगन्ध, खिरौटी, वेलगिरी और दशमूलकी औषधिये इन सबका काथ बनाकर इस काथमें अण्डेके तेलको पकावे । इस तेलका गृध्रसीरोगमें वास्तिकर्मके द्वारा प्रयोग करे ॥ ६०७ ॥

शिशिपात्वक्तुलां क्षुण्णां जलद्रोण-
द्वये पचेत् । अष्टभागावशिष्टञ्च पूतं
लेहञ्च कारयेत् ॥ ६०८ ॥ पायसं स-
हविष्यान्नं तत्कर्षेण च मिश्रितम् ।
भक्षयेदेकविंशाहं गृध्रसीनाशनं
परम् ॥ ६०९ ॥

सीसमकी छाल एक तुला परिमाण लेकर कुठ कूट कर दो द्रोण जलमें पकावे, जब पकते २ जल आठवाँ भाग बाकी रह जाय तब उतार कर छान लेवे । फिर इसको दुबारा पकावे । जब यह लेहके समान होजाय तब इसमें प्रतिदिन पायस (खीर) और हविष्यान्न यह प्रत्येक एक २ तोला परिमाण मिलाकर इक्कीस दिनतक खाय तो अवश्य गृध्रसी-रोग दूर होजाता है ॥ ६०८ ॥ ६०९ ॥

सैन्धवादितैल ।

द्वे पले सैन्धवात्पञ्च शुण्ठ्या प्रन्थिक-
चित्रकात् । द्वे द्वे भल्लातकास्थीनि
विंशतिद्वे तथाढके ॥ ६१० ॥ आर-
नालात्पचेत्प्रस्थं तैलस्यैरण्डजस्य
च । गृध्रस्यूरुग्रहांश्चापि सर्ववातवि-
कारलुत ॥ ६११ ॥

सैधा नमक ८ तोले, सोठ २० तोले, पीपलामूल और चीता प्रत्येक आठ आठ तोले, भिलावेकी गिरी २० पल, काजी दो आढक और अंडीका तेल एक प्रस्थ लेवे, इन सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिसे तेलको पकावे । यह तेल-गृध्रसी वात, ऊरुग्रह और सर्व प्रकारके वात-विकारोंको नष्ट करता है ॥ ६१० ॥ ६११ ॥

गोक्षुरादितैल ।

श्वदंष्ट्रा स्वरसं तैलं क्षीराढकसम-
न्वितम् । शृङ्गवेरपलान्पञ्च विशद्भुड

पलानि च ॥ ६१२ ॥ सिद्धमेकत्र
तत्तैलं गृध्रस्यां पादकम्पने । कटीपृष्ठ-
ग्रहे शोथे शस्तं वातविकारिणाम् ॥
॥ ६१३ ॥ वन्ध्यानां गर्भजननं रेतो-
दोषापकर्षणम् । बस्तौ पाने हितञ्चैव
विशेषान्मूत्रकृच्छ्रिणाम् ॥ ६१४ ॥

गोखरुका स्वरस या काढा एक आठक, तेल १
आठक, दूध १ आठक, अदरखका कल्क ५ पल,
गुड २०पल इन सबको एकत्र करके तेलको सिद्ध करो।
यह तेल-गृध्रसी, पादकम्प, कटीग्रह, पृष्ठग्रह, सूजन
और सर्व प्रकारके वातविकारोमे हितकारी है। वध्या
स्त्रियोके गर्भको देनेवाला, वीर्य्यदोषको दूर करनेवाला
और विघ्न करके मूत्रकृच्छ्र रोगियोको वन्ति ओर
पानकर्ममे हितकारी है ॥ ६१२ ॥ ६१३ ॥ ६१४॥

इति श्रीवङ्गसेने भापाटीकाया वातव्याधि-
निदानचिकित्साधि-
कार सम्पूर्ण ।

अथ वातरक्ताधिकार ।

वातरक्ता निदान ।

लवणाम्लमधुक्षारस्निग्धोष्णाजीर्ण-
भोजनैः । क्लिन्नशुष्कांबुजानूपसांसपि-
प्याकमूलकैः ॥ १ ॥ कुलित्थमाषानिष्पा-
वशाकादिपल्लेक्षुभिः । दध्यारनाल-
सौवीरचक्रतक्रसुरासवैः ॥ २ ॥ वि-
रुद्धाध्यशनक्रोधदिवास्वप्नप्रजागरैः ।
प्रायशः सुकुमाराणां मिथ्याहारवि-
हारिणाम् । स्थूलानां दुःखितानाञ्च
कुप्यते वातशोणितम् ॥ ३ ॥

नमक, खट्टे, मधुर, खारी, चिकने, गरम और
कच्चे पदार्थोंको भक्षण करनेसे अथवा अजीर्णमे भोजन

करनेमे, सउं हुए या सूये जलचर जीवोंके मांसको
तथा जलके निकट रहनेवाले जीवोंके मांसको म्यांसे,
तिलकक (गल), मूली, कुलवी, उट्ट, सेमके
बीज, शाकादिक, माम, इंग्र, दही, कांजी,
सौवीर नामवाली कांजी, चूके, तक (मट्टा), मदिग,
आसन, विरुद्धभोजन (संयोग, दंश, फाल और मात्रा
विरुद्ध द्रव्य) इन सब पदार्थोंको भक्षण करनेसे तथा
भक्षण किये हुए भोजन न पचनेपर फिर कच्ची अव-
स्थामे भोजन करनेसे, क्रोध करनेसे, दिनमें सोनेसे,
रात्रिमे जागनेसे इत्यादि अनेक कारणोंमे विशेष कर
सुकुमार और मिथ्याहार विहार करनेवाले मनुष्योंके
तथा स्थूल शरीरवाले और दु गिन मनुष्योंके वात
और रक्त कुपित होता है ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥

वातरक्तकी सम्प्राप्ति ।

हस्त्यश्वोष्ट्रैर्गच्छतश्चाशनतश्च वैदा-
ह्यन्नं सविदाहाशनस्य । कृत्स्नं रक्तं
विदहत्याशु तच्च दुष्टं सस्तं पादयो-
श्चीयते तु ॥ ४ ॥ तत्संपृक्तं वायुना
दूषितेन तत्प्रावल्यादुच्यते वातर-
क्तम् ॥ ५ ॥

हाथी, घोडे और ऊँटपर चढ़कर चलनेवाले मनु-
ष्योंके दाहकारक अन्न पान सेवन करनेसे तथा
विदग्ध अवस्थामें भोजन करनेसे, शरीरका समस्त
रुधिर जल कर पाँवोंमे संचित होकर सूजन पैदा
करता है । फिर वह रुधिर दुष्ट वायुसे मिल जाता है
तब दोनोंकी प्रवलतासे इसको वातरक्त कहते हैं ४॥ ५॥

वातरक्तके पूर्वलक्षण ।

स्वेदोऽत्यर्थं नवा कार्ण्यं स्पर्शान्तिव्यं
कृतीति रुक् । सन्धिशैथिल्यमालस्यं
सदनं पिटिकोद्गमः ॥ ६ ॥ जानुज-
ङ्घोरुकट्यंसहस्तपादाङ्गसन्धिषु ।
निस्तोदः स्फुरणं भेदो गुरुत्वं सुप्ति-
रेव च ॥ ७ ॥ कंडूः सन्धिषु रुग्दाहो
भूत्वा नश्यति चासकृत् । वैवर्ण्यं म-
ण्डलोत्पत्तिर्वातासुकूपर्वलक्षणम् ॥ ८ ॥

पसीनेका अधिक आना, अथवा चिलकुल नहीं आना, जिस स्थानमें रोग उत्पन्न हो उस स्थानका काला पड जाना तथा स्पर्शका ज्ञान नष्ट होजाना, अत्यन्त पीडाका होना सन्धिवन्धनका शिथिल होना, आलस्य, अंगोका रह जाना, शरीरमें फुंसियोंका उत्पन्न होना, तथा जानु, जंघों, ऊरु, कटि, स्कन्ध हाथ पांव और सन्धिस्थानोंमें सुई चुभोनेके समान पीडा होना, अंग फडकना, तोडनेके समान पीडा होना, भारीपन, शरीरमें शून्यता, खुजली, सन्धियोंमें पीडा वागवार दाहका उत्पन्न होना और तत्काल नष्ट होजाना, विवर्णता और शरीरमें गोल २ चकत्तोका होना, ये वातरक्तके उत्पन्न होनेसे पूर्व लक्षण होते हैं ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥

वाताधिक वातरक्तके लक्षण ।

वाताधिकेऽधिकं तच्च शूलस्फुरणतो-
दनम् । शोथस्य रूक्षकृष्णत्वं श्याव-
तावृद्धिहानयः ॥ ९ ॥ धमन्यंगुलि-
सन्धीनां संकोचोऽङ्गग्रहोऽतिरूक् ।
शीतद्वेषालुपशयो स्तम्भवेपथु
सुप्तयः ॥ १० ॥

वाताधिकवातरक्तमें विशप कर शूल, अंगोका फडकना और तोडनेकीसी पीडाका होना, सूजन, रूक्षता, कृष्णता या नीलापन तथा वातरक्तके लक्ष-
णोंकी वृद्धि हो और तत्काल वे शांत हो जायें, धमनी और अंगुलियोंकी सन्धियोंका संकोच हो, देह जकडजाय और अत्यन्त पीडा हो, शीतलपदार्थोंमें अरुचि हो और शीतको सेवन करनेसे रोगकी वृद्धि हो तथा स्तम्भ, कम्प और शून्यता होती है ॥९॥१०॥

रक्ताधिक वातरक्तके लक्षण ।

रक्ते शोथोऽतिरूक् तोदस्ताम्रश्विमि-
चिमायते । स्निग्धरूक्षैः शमं नैति
कण्डूक्लेदसमन्वितः ॥ ११ ॥

रक्ताधिक वातरक्तमें सूजन, अत्यन्त पीडा, तोडन सरीखी पीडा होना, खुजली और उस स्थानमें

तावेके समान लाल क्लेद बहे, एव सूजनमें चिम २ गन्ध होता है, स्निग्ध और रूक्ष क्रियासे रोगकी शांति नहीं होती ॥ ११ ॥

पित्ताधिक वातरक्तके लक्षण ।

पित्ते विदाहः संमोहः स्वेदो मूर्च्छा
मदस्तृषा । स्पर्शाक्षमत्वं रुग्णांगः
शोकः पाको भृशोष्णता ॥ १२ ॥

पित्ताधिक वातरक्तमें अत्यन्त दाह, मोह, पसनीका आना, मूर्च्छा, मद, तृषा, स्पर्शको न सह सकना, अत्यन्त पीडा, लाल वर्ण, सूजन, छोटे २ पाले फोडे होकर उनका पक जाना और अत्यन्त गरमी होना ये लक्षण होते हैं ॥ १२ ॥

कफवातरक्तके लक्षण ।

कफे सैमित्यगुरुता सुप्तिः स्निग्धत्व-
शीतता । कण्डूंर्मन्दा च रुग्द्वन्द्वे सर्व-
लिङ्गश्च संकरे ॥ १३ ॥

कफाधिक वातरक्तमें शरीर भीगे, कपडसे ढकासा मालूम हो, शरीरमें भारीपन हो, शून्यता, स्निग्धता, शीतलता, खुजली और मदपीडा होती है । द्वंद्वज और त्रिदोषज वातरक्तमें दो दोषों और तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं ॥ १३ ॥

उपद्रवैर्यच्च जुष्टं प्राणमांसक्षयादि-
भिः । प्राक् स्थित्वा पाणिपादेषु
कृत्स्नदेहं विसर्पति ॥ १४ ॥

जिसमें सम्पूर्ण उपद्रव हों, रोगीका बल और मांस क्षीण होगया हो उसके प्रथम वातरक्त हाथ और पावोंमें उत्पन्न होकर फिर सम्पूर्ण शरीरमें फैल जाता है ॥ १४ ॥

पादयोर्मूलमास्थाय कदाचित् सुप्त-
योरपि । आखोर्विषमिव क्रुद्धं तदे-
हमनुसर्पति ॥ १५ ॥

जिस प्रकार चूहेका विष कांट हुए स्थानसे क्रमसे सर्व शरीरमें फैल जाता है उसीप्रकार वातरक्त पादमूल या हस्तमूलमें उत्पन्न होकर सर्वशरीरमें फैल जाता है ॥ १५ ॥

असाध्यलक्षण ।

आजानु स्फुटितं यच्च प्रभिन्नं प्रस्तु-
तश्च यत् । वातरक्तमसाध्यं स्याद्याप्यं
संवत्सरोत्थितम् ॥ १६ ॥

जिस वातरक्तमे पांवोसे घुटनेतककी त्वचा विदीर्ण
हो गई हो या अधिक फट गई हो एव जिसमे रुधिर
और राध टपके ऐसा रोगी असाध्य जानना । जिस
वातरक्तको उत्पन्न हुए एक वर्ष बीत गया हो, पूर्वोक्त
लक्षण अधिक नहीं हो वह याय्य हांता है ॥ १६ ॥

वातरक्तके उपद्रव ।

अस्वप्नारोचकश्वासमांसकोथशिरो-
ग्रहाः । समूर्च्छामन्दरुक्तृष्णाज्वर-
मोहप्रवेपकाः ॥ १७ ॥ हिक्कापांगुल्य-
वीसर्पपाकतौदभ्रमक्कमाः । अंगुली-
वक्रतास्फोटदाहर्मग्रहावृदाः ॥ १८ ॥
एतैरुपद्रवैर्युक्तो मोहेनैकेन वापि
यत् । तमसाध्यामिति प्राहुर्वातरक्तं
विचक्षणाः ॥ १९ ॥

निद्राका नहीं आना, अरुचि, श्वास, मांसका
गल कर गिरना, शिरमे पीडा, मूर्च्छा, शरिरमें मंद २
पीडा, तृषा, ज्वर, मोह, शरीर लिपासा रहे, कम्प,
हिचकी, पंगुता, विसर्प, पकना, तोडनेसरीखी पीडा,
भ्रम, ग्लानि, हाथो पावोकी अगुलियोका टेढा हो
जाना, फोडोका उत्पन्न होना, दाह, मर्मस्थानोका
जकडना और अर्बुद ये सब वातरक्तके उपद्रव है ।
इन सब उपद्रवोयुक्त वातरक्त रोगी असाध्य होता है ।
केवल एक मोह ही हो तो भी असाध्य होता है, कारण
कि मोहग्रस्तरोगी नहीं बचता है ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥

साध्यासाध्यप्रकार ।

अकृत्स्नोपद्रवं याप्यं साध्यं स्यान्नि-
रुपद्रवम् । एकदोषानुगं साध्यं नवं
याप्यं द्विदोषजम् ॥ त्रिदोषजमसाध्यं
स्याद्यस्य च स्युरुपद्रवाः ॥ २० ॥

वातरक्तमे जां समस्त उपद्रव न हो तो याप्य, जो
एक भी उपद्रव नहीं हां तो साध्य है । एक दोष

जनित नवीन वातरक्त साध्य है, दों दोषजनित और
नवीन वातरक्त याप्य और त्रिदोषजनित नया
उपद्रवयुक्त वातरक्त असाध्य है ॥ २० ॥

वातरक्तकी चिकित्सा

वातशोणितिनो रक्तं स्निग्धस्य बहु-
शो हरेत् । अल्पाल्पं रक्षयेद्वायुं यथा-
दोषं यथावलम् ॥ २१ ॥

वातरक्त रोगीको प्रथम स्नेहपानादिकसे स्निग्ध
करके, दोष और बलानुसार वायुकी वृद्धिसे रोगीकी
रक्षा करता हुआ वाग्दार थोडा २ रुधिर निकल-
वावे ॥ २१ ॥

उग्रांगदाहतोदेषु जलौकाभिर्विनिर्ह-
रेत् । तुम्बीगृह्णैश्चिमिचिमाकंडूरुग्वे-
दनान्वितम् ॥ २२ ॥ प्रच्छन्नेन शिरा-
भिर्वा देशादेशान्तरं व्रजेत् ॥ २३ ॥

वातरक्तरोगमें-जां शरीरमें उग्र दाह और तांडने-
सरीखी पीडा हो तो जोकरके द्वारा रुधिर निकलवावे,
जो शरीरमे चिमचिम ऐसा शब्द हो तथा खुजली
और घोर पाडा हो तो तोम्बी अथवा शिगी
लगवा कर रुधिर निकलवावे ॥ २२ ॥ जो वात-
रक्तमे ऐसे रुधिरको न निकाला जाय तो वह
रुधिर गुप्तरातिसे अथवा शिराओके मार्गसे सम्पूर्ण
शरीरमे व्याप्त हो जाता है ॥ २३ ॥

अंगे म्लाने तु न स्त्राव्यं रूक्षं वातो-
त्तरश्च यत् । गम्भीरं श्वयथुं स्तम्भं
कम्पवातशिरामयान् ॥ २४ ॥ ग्ला-
निमन्यांश्च वातोत्थान्कुर्व्याद्वायुरसृ-
क्क्षयात् । खजादीन्वातरागंश्च मृ-
त्युं वात्यवशेषितम् ॥ २५ ॥ कुय्यात्त-
स्मात्प्रमाणेन स्निग्धाद्रक्तं विनि-
हरेत् ॥ २६ ॥

जा वातरक्त रोगीका शरीर म्लान (मुरझाया
आर रूखा) हो तथा वाताधिक वातरक्त हो तो
रुधिरको नहीं निकलावे । दि भूलसे ऐसे
रोगियोंका रुधिर निकाल लिया जाय तो
वायु रुधिरके क्षय होनेसे गम्भीर सजन,

स्तम्भ, कम्प, वात, शिराओंके रोग, ग्लानि और अनेक प्रकारके वातजनित रोगोंको उत्पन्न करती है। विना विचारे अथवा अधिक रुधिर निकालनेसे अनेक प्रकारके वातजनित खंजता आदि रोग अथवा मृत्यु होती है। इस कारण प्रथम रोगीको स्निग्ध करके प्रमाणके अनुसार रुधिर निकलवाना चाहिए ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥

विरेचयेच्च पित्तादौ स्नेहयुक्तैर्विरेचनैः।
रुक्षैर्वा मृदाभिः शस्तमसकृद्रस्तिक-
र्म च ॥ नहि वस्तिसमं किञ्चिद्वात-
रक्तचिकित्सितम् ॥ २७ ॥

पित्ताधिक वातरक्त रोगमें विरेचनकी औपधियोंमें स्नेह डाल कर विरेचन करावे। रुक्ष अथवा मृदु औपधियोंके द्वारा वस्तिकर्म करावे। वस्तिकर्मके समान वातरक्तकी अन्य चिकित्सा नहीं है ॥ २७ ॥

बाह्यमालेपनाभ्यङ्गपरिषेकोपनाहनैः।
विरेकास्थापनस्नेहपानैर्गम्भीरमा-
चरेत् ॥ २८ ॥

बाह्य वातरक्तमें प्रलेप, अभ्यङ्ग(मालिस), परिषेक (जलका छिडकना) और उपनाह ये सब उपचार करे। गम्भीर वातरक्तमें विरेचन, आस्थापन वस्ति, स्नेहपान ये सब उपचार करे ॥ २८ ॥

अपथ्य ।

दिवास्वप्नं श्रमं तापं व्यायामं मैथुनं
तथा । कटूष्णं गुर्वभिष्यादि लवणा-
म्लं विवर्जयेत् ॥ २९ ॥

वातरक्त रोगमें दिनमें सोना, परिश्रम करना, सूर्य-
की धूपको सेवन करना, दण्ड, कसरत करना,
स्त्रीप्रसंग, चरपेरे, गरम, भारी, अभिष्यन्दी, नमक
और खटाई ये सब पदार्थ छोड़ देने चाहिए ॥ २९ ॥

पथ्य ।

पुराणयवगोधूमा नवाराः शालि-
षट्ठिकाः । भोजनार्थं रसार्थं तु
विष्किराः प्रतुदा हिताः ॥ ३० ॥

पुराने जौ, गेहूँ, नववारधान, शालिधान और साठीधान ये भोजनके लिये देवोरसके लिये विष्किर जातिके और प्रतुदजातिके पक्षियोंका मांसरस देवे ॥ ३० ॥

आढक्यश्रणका मुद्गा मसूराश्च मकु-
ष्टकाः । सूपार्थं बहुसर्पिष्काः प्रशस्ता
वातशोणिते ॥ ३१ ॥

दालके लिये अडहर, चने, मूंग, मसूर और मोठ इनकी दाल बनाकर बहुतसा घी डालकर देवे ॥ ३१ ॥

सुनिषण्णकवेत्राग्रं काकमाचीशताव-
री । वास्तुकापोदकीशाकं शाकं
सौवर्चलं तथा ॥ ३२ ॥ घृतमांसर-
सैर्भृष्टं शाकसात्म्याय दापयेत् ॥ ३३ ॥

वातरक्तमें शाकके लिये शिरिआरी अर्थात् चौप-
तियाका शाक, वेतका अग्रभाग, मकोयके पत्तोका
शाक, गतावरके पत्तोका शाक, बथुष्का शाक, पोई
का शाक और ब्रह्मीका शाक, ये सब शाक घी और
मांसरसमें भूनकर जिनको शाक अनुकूल पडता है
उनको देवे ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

सर्पिस्तैलवसामज्जापानाभ्यञ्जनब-
स्तिभिः । सुखोष्णैरुपनाहैश्च वातो-
त्तरमुपाचरेत् ॥ ३४ ॥

वाताधिक वातरक्तरोगमें घी, तेल, वसा (चर्बी),
और मज्जा इनका पान, अभ्यञ्जन, वस्तिकर्म और
मंदोष्ण उपनाह इनके द्वारा व्यवहार करे ॥ ३४ ॥

हितं गोधूमचूर्णैर्वा छागक्षीरघृतप्लु-
तैः । लेपः पिष्टात्तिलास्तद्द्रष्टाः प-
यासि निर्वृताः ॥ ३५ ॥ क्षीरपिष्टा-
तसीलेपाद्द्रमानफलेन वा ॥ ३६ ॥

गेहूँके चूनको बकरीके दूध और धीमें मिलाकर
अथवा मुनेहुए तिलोंको दूधमें पीसकर लेप करनेसे
वातरक्तका गमन होता है। अलसीको दूधमें पीस कर
लेप करनेसे अथवा अंडके बीजको दूधमें पीस कर
लेप करनेसे वातरक्त रोग दूर होता है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

उभे शताहे मधुकं बला च प्रियाल-
कश्चापि कशेरुकश्च । घृतं विदारी च

सितोपलाञ्च युञ्ज्यात्प्रदेहं पवने सर-
क्ते ॥ ३७ ॥

शतावर, बडी शतावर, मुलैठी, विरैटी, चिरैजी,
कशेरू, घी, विदारीकंद और मिश्री इन सबको एकत्र
पीस कर लेप करनेसे वातरक्त दूर होता है ॥ ३७ ॥

रास्नागुडूचीमधुकं बले द्वे सजीरकं
सार्षपकं पयश्च । घृतं सुसिद्धं मधुशे-
षयुक्तं रक्तानिलार्त्तं प्रणुदेत्प्रदेहम् ३८ ॥

रायसन, गिलोय, मुलैठी, विरैटी, कंघी, जीर
और सरसो, इनको एकत्र पीस कर दूध और घृतमें
मिला कर पकावे, जब घृत सिद्ध होजाय तब इसमें
शहद डाल कर लेप करे तो वातरक्तकी पीडा जमान
होती है ॥ ३८ ॥

वासागुडूचीचतुरंगुलानामेरण्डतैलेन
पिवेत्कषायम् । क्रमेण सर्वाङ्ग-
मप्यशेषं जयेदसृग्वातभवं विकार-
म् ॥ ३९ ॥

अङ्गुसा, गिलोय और अंडकी जड इनका काथ
बनाकर उसमें अंडीका तेल डालकर सेवन करनेसे
क्रम क्रमसे सर्वांगगत वातरक्त रोग दूर होता है ३९

त्रिवृद्धिदारीक्षुरककाथो वातास-
नाशनः ॥ ४० ॥

निसोथ, विदारीकंद और गोखरू इनका काथ
बनाकर सेवन करनेसे वातरक्त रोग दूर होता है ४०

गुडूच्याः स्वरसं कल्कं चूर्णं वा का-
थमेव वा । प्रभूतकालमासेव्यो मुच्यते
वातशोणितात् ॥ ४१ ॥

गिलोयके स्वरस या कल्क अथवा चूर्ण किवा
काथको नित्य सेवन करनेसे वातरक्त रोग दूर होता
है ॥ ४१ ॥

अमृतानागरधान्यककर्षतृतीयेण पा-
चनं सिद्धम् । जयति सरक्तवातं
सामं कुष्ठान्यशेषेण ॥ ४२ ॥

गिलोय, सौंठ और धनियाँ ये प्रत्येक एक २ तोला
लेकर काथ बनाकर सेवन करे तो वातरक्त, आम-
वात और सर्व प्रकारके कुष्ठ नष्ट होते हैं ॥ ४२ ॥

वत्सादन्युद्भवः काथः पीतो गुग्गुलु-
मिश्रितः । समीरणसमायुक्तं शोणितं
संप्रणाशयेत् ॥ ४३ ॥

गिलोयके काथमें गुग्गुलु टाल कर सेवन करनेसे
वातरक्त रोग दूर होता है ॥ ४३ ॥

अभया गुड ।

तिस्त्रोऽथवा पञ्च गुडेन पथ्या जग्ध्वा
पिवेच्छिन्नरुहाकषायम् । तद्वातरक्तं
शमयत्युदीर्णमाजानुभिन्नं च्युतमप्य-
वश्यम् ॥ ४४ ॥

तीन अथवा पाँच हरटोंको गुड़में मिला कर ग्याच
और ऊपरसे गिलोयका काथ पान करे तो जानु
पर्यंत फैला हुआ भी वातरक्त दूर होता है ॥ ४४ ॥

गुग्गुलुवटी ।

गुग्गुलुवमृतवल्लीभिर्द्राक्षालुङ्गरसेन
वा । त्रिफलायारसैर्युक्ता गुटिका का-
लसम्मिता ॥ ४५ ॥ भक्षयेन्मधुना-
ऽऽलोडच शृणु कुर्वन्ति यत्फलम् ।
पादस्फोटं महाघोरं स्फोटं सर्वाङ्ग-
जश्च यत् । तत्सर्वं नाशयत्याशु
ह्यसाध्यं वातशोणितम् ॥ ४६ ॥

गुग्गुलु, गिलोय और दाख इनको एकत्र पीस कर
विजैरि नींबूके रसमें अथवा त्रिफलेके रसमें छोटे
घेरकी बराबर गोलियाँ बना लेवे । इन गोलियोंको
शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे पादस्फोट, सर्वांग-
गत महाघोर स्फोट और असाध्य वातरक्त शीघ्र ही
दूर होता है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥

माहिषं नवनीतन्तु फलिनीपरिमि-
श्रितम् । गोमूत्रमिश्रितं कृत्वा क्षी-
रेण लवणेन च ॥ ४७ ॥ तदेकत्र स-
मालोडच वह्निना तापयेच्छनैः । गा-
त्रमुद्गर्तयेत्तेन देहस्फुटनशान्तये ॥ ४८ ॥
फूलप्रियंगुको भँसके नैनीषीमे मिला कर फिर गोमूत्र,

दूध और नमक इन सबमें अच्छे प्रकारसे मिलाकर मंद मंद अग्निसे गरम करके शरीर पर लेप करनेसे देहका फूटना बंद होता है ॥ ४७ ॥ ४८ ॥

घृतेन वातं सगुडा विबन्धं पित्तं
सिताढ्या मधुना कफश्च । वाताह्नमुग्रं
रुडुतैलमिश्रा शुण्क्यामवातं शमये-
द्गुडूची ॥ ४९ ॥

गिलोय-घृतके साथ सेवन करनेसे वातरोगको, गुडके साथ सेवन करनेसे विबन्धको, मिश्रीके साथ सेवन करनेसे पित्तके रोगोंको, शहदके साथ सेवन करनेसे कफको, अंडीके तेलके साथ सेवन करनेसे उग्र वातरक्तको और साँठके साथ सेवन करनेसे आमवातको नष्ट करता है ॥ ४९ ॥

सिंहास्यपञ्चमूलच्छिन्नरुहैरण्डगोक्षुर-
काथः । एरण्डतैलरामठसैन्धवचूर्णा-
न्वितः पीतः ॥ ५० ॥ शमयति
वातरक्तं तथा मवातं कटीशूलम् । मूत्र-
पुरीषविबन्धब्रध्मविकारं सुदुर्वारम् ५१

अडूसेकी जड़, पंचमूलकी औषधिये, गिलोय, अण्डकी जड़ और गोखरू इनका काथ बनाकर उसमें अण्डकी तेल, हींग और सैन्धेनमकका चूर्ण डालकर पान करे तो वातरक्त रोगका शमन होता है तथा आम-वात, कटिशूल, मलमूत्रावरोध और दुस्तर ब्रध्मरोग दूर होता है ॥ ५० ॥ ५१ ॥

गन्धर्वहस्तवृषगोक्षुरकामृतानां मूलं
बलेक्षुरकयोश्च पचेत्तु धीमान् । वा-
तासृगाशु विनिहन्ति चिरप्ररूढमा-
जानुगस्फुटितमूर्ध्निगतं तु धीमान् ५२ ॥

अण्डकी जड़, अडूसा, गोखरू, गिलोय, खिरैटी और तालमखाना इनका काथ बनाकर सेवन करनेसे बहुत दिनोंका जानुतक और मस्तकतक फैला हुआ घोर वातरक्तका भी शमन होता है ॥ ५२ ॥

पिप्पलीवर्धमानं वा सेव्या पथ्या
गुडेन वा कोकिलाक्षामृताकाथे
पिबेत्कृष्णां यथाबलम् ॥ ५३ ॥

वर्द्धमानपीपलको सेवन करनेसे अथवा हरडको गुडके साथ सेवन करनेसे या बलानुसार पीपलके चूर्णको तालमखाने और गिलोयके काथमें मिलाकर सेवन करनेसे वातरक्तका शमन होता है ॥ ५३ ॥

मधुकाद्द्विगुणं तैलं तैलादाजं पयो
भवेत् ॥ ५४ ॥ यद्यथाग्निबलं पेयं
वातरक्तरुजापहम् ॥ ५५ ॥

मुलैठीसे दुगुना तेल, तेलके बराबर घी और दूध लेवे, सबको एकत्र मिलाकर सिद्ध करे । इसको अग्निका बलाबल विचार कर पान करे तो वातरक्त रोग दूर होता है ॥ ५४ ॥ ५५ ॥

नवकार्षिक काथ ।

त्रिफलानिम्बमज्जिष्ठावचाकुटुकरो-
हिणी । वत्सादनीदारुनिशाकषायं
नवकार्षिकम् ॥ ५६ ॥ वातरक्तं तथा
कुष्ठं पामानं रक्तमंडलम् । कुष्ठं कपा-
लिकाकुष्ठं पानादेवापकर्षति ॥
पञ्चरक्तिकमाषेण कार्योऽयं नवका-
र्षिकः ॥ ५७ ॥

त्रिफला, नीम, सर्जीठ, वच, कुटकी, गिलोय और दारुहलदी ये प्रत्येक औषधि एक एक तोला लेकर काथ बनावे । इस काथको सेवन करनेसे—वातरक्त, कोड, पामा, रक्तमण्डल, कुष्ठ और कपालकुष्ठ ये सब तत्काल नष्ट हो जाते हैं । यहाँपर पांच रक्तीके मासेके हिसाबसे तोला लेना चाहिये ॥ ५६ ॥ ५७ ॥

कर्षादौ तु पलं यावद्दद्याद्दशगुणं
जलम् । ततस्तु कुडवं यावत्तोयमष्ट
गुणं भवेत् ॥ ५८ ॥

काथके लिये कर्षसे लेकर पलपर्यन्त औषधियोंमें दशगुना जल डालना और पलसे लेकर कुडवपर्यन्त औषधियोंमें अठगुना जल डालना चाहिए ॥ ५८ ॥

विरेचनेर्धृतक्षीरपानैः सेकैः सबस्ति-
भिः । शीतैर्निर्वापणैश्चापि रक्तपित्तो-
त्तरं जयेत् ॥ ५९ ॥

रक्ताधिक और पित्ताधिक वातरक्तोगमें विरेचन, घृत, दूध पात, वस्तिकर्म और शीतल आच्छादन इनके द्वारा चिकित्सा करे ॥ ५९ ॥

रक्तोत्तरं क्षीरघृतमधुकोशीरवारि-
भिः । लेपनं शाल्मलीकल्कमावि-
क्षीरेण संयुतम् ॥ ६० ॥ सेचनं वा
प्रकर्तव्यमाविक्षीरेः क्षणं क्षणम् । स-
हस्रशतधौतेन घृतेन रुधिरोत्तरे ६१ ॥
लेपनं कौण्णशीतेन घृतसर्जरसेन
वा । सरागे सरुजे दाहे रक्तं विस्त्रा-
व्य लेपयेत् ॥ ६२ ॥

रक्ताधिक वातरक्तोगमें दूध, घी, सुलैठी, खस और जल इनका शरीरपर लेप करे । अथवा सेमलके कल्कको भेडके दूधमें मिलाकर लेप करे अथवा भेडके दूधका चारंवार शरीरपर सेचन करे । रक्ताधिक वातरक्तमे हजार बार अथवा सौ बार धुले हुए घीकी मालिश करे । अथवा राल और घृतको गरम करके सुहाता सुहाता लेप करे । लाली, पीडा और दाह हो तो प्रथम रुधिर निकलवा कर पश्चात् औषधियोंका प्रलेप करे ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥

तिलाः प्रियालं मधुकं विषं मूलञ्च
वेतसाम् । सवृतः पयसा पिष्टः प्रले-
पो रागदाहनुत् ॥ ६३ ॥

तिल, चिरौजी, सुलैठी, कमलकंद और वेतकी जड़ इनको दूधमें पीस कर घृत मिलाकर प्रलेप करे तो लाली और दाह दूर होती है ॥ ६३ ॥

पित्तोत्तरे तु काश्मर्यद्राक्षारग्वध-
चन्दनैः । मधुकक्षीरकाकोलीयुक्तैः
क्वाथं सुशीतलम् ॥ शर्करामधुसंयुक्तं
वातरक्ते पिबेन्नरः ॥ ६४ ॥

पित्ताधिक वातरक्तमे-कुम्भेर, दाख, अमल-
तास, चंदन, सुलैठी और क्षीरकाकोली इनका क्वाथ बनाकर शीतल करके उसमें खांड और गृहद मिला कर सेवन करे ॥ ६४ ॥

पटोलत्रिफलाभीरुगुडूचीकटुरोहि-
णी । क्वाथः पित्ताधिके शस्तः शर्क-
रामधुसंयुतः ॥ ६५ ॥

पटोलपत्र, नीमकी छाल, त्रिफला, अतावर, गिलेय और कुटकी इनका क्वाथ बनाकर उसमें मिश्री और शहद डालकर सेवन करे तो पित्ताधिक वातरक्त दूर होता है ॥ ६५ ॥

वमनं मृदुनाऽत्यर्थं स्नेहसेकैर्विलङ्घ-
नम् । कौण्णाः सेकाश्च शस्यन्ते वात-
रक्ते कफोत्तरे ॥ ६६ ॥

कफाधिक वातरक्तमे मृदु करनेके लिये वमन करावे तथा स्नेहकर्म, सीचना और लंघन ये सब प्रयोग करे । इस कफाधिक वातरक्तको मंदोष्ण जलके द्वारा सीचना चाहिए ॥ ६६ ॥

तैलमूत्रसुरायुक्तैः परिषेकः सदा
हितः । गौरसर्षपकल्केन प्रदेहो वात-
रक्तहा ॥ ६७ ॥

तेल, मूत्र और मदिरा इनको मिलाकर शरीर पर सेक करना सदैव हितकारक है, सफेद सरसोके कल्कका प्रलेप करनेसे कफाधिक वातरक्तका शमन होता है ॥ ६७ ॥

शिग्रुवरुणयोः कल्को धान्याम्लेना-
निलार्त्तिजिल्लिपात् । भवति नवेति
च कल्को न विधेयः सिद्धयोगेऽ-
स्मिन् ॥ ६८ ॥

सहिजने और वरनेकी छालके कल्कको धानोंकी कांजीमें मिलाकर लेप करनेसे वातकी पीडा शमन होती है वा नहीं इस कल्कसिद्ध योगमें ऐसा कभी नहीं समझना चाहिये ॥ ६८ ॥

कल्कः श्लेष्मोत्तरे लेप्यो वाजिगंधा-
तिलोद्भवः । लेपः सर्षपनिम्बार्क
हिंसाक्षारतिलैर्हितः ॥ ६९ ॥

असगंध और तिलोका कल्क बनाकर कफाधिक वातरक्तमे प्रलेप करे । अथवा सरसो, नीम, आक, वालछड और तिलोका खार इनको एकत्र मिला कर प्रलेप करे ॥ ६९ ॥

गृह्यमवचाकुष्ठशताह्वारजनीद्वयम् ।
प्रलेपः शूलनुद्वातरक्ते चाथ कफो-
त्तरे ॥ ७० ॥

घरका धुआसा, वच, कूठ, शतावर, हल्दी और
दारुहलदी इनको एकत्र मिलाकर प्रलेप करनेसे
कफाधिक और रक्ताधिक वातरक्तका शूल नष्ट
होता है ॥ ७० ॥

अमृताकटुकायष्टीशुण्ठीकल्कं समा-
क्षिकम् । गोमूत्रपीतं जयति सकफं
वातशोणितम् ॥ ७१ ॥

गिलोय, कुटकी, मुँलठी और सोंठ इनके कल्कमे
शहद मिलाकर गोमूत्रके साथ सेवन करनेसे कफा-
धिक वातरक्तरोग दूर होता है ॥ ७१ ॥

धात्रीहरिद्रामुस्तानां कषायं वा स-
माक्षिकम् । संसर्गे सन्निपाते च
क्रियामन्यविमिश्रिताम् ॥ ७२ ॥

आमले, हल्दी और नागरमोथा इनके काथमें
शहद डालकर पान करनेसे कफाधिक वातरक्तरोग
दूर होता है । द्विदोषज और त्रिदोषज वातरक्तमे
अन्यान्य मिश्रित चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ७२ ॥

बलाघृत ।

बलामतिबलां भेदामात्मगुप्तां शता-
वरीम् । काकोलीं क्षीरकाकोलीं
रास्नां मृद्धीञ्च पेषयेत् ॥ ७३ ॥ घृतं
चतुर्गुणं क्षीरं तैः सिद्धं वातरक्तनुत् ।
हृत्पाण्डुरोगवीसर्पकामलादाहनाश-
नम् ॥ ७४ ॥

खिरँदी, कंधी, भेदा, कौष्ठ, शतावर, काकोली,
क्षीरकाकोली, रास्ना और दाख इनके कल्कके द्वारा
घृतको चौगुने दूधमें पकावे । यह घृत-वातरक्त, हृद-
यरोग, पाण्डुरोग, विसर्प, कामला और दाहको दूर
करता है ॥ ७३ ॥ ७४ ॥

शतावरीघृत ।

शतावरीकल्कगर्भं रसे तस्याश्चतुर्गुणे ।
क्षीरतुल्यं घृतं सिद्धं वातशोणितना-
शनम् ॥ ७५ ॥

शतावरके कल्क और चौगुने काथके द्वारा तथा
चौगुने दूधमे घृतको सिद्ध करे । यह घृत-वातरक्तको
दूर करता है ॥ ७५ ॥

गुडूचीघृत ।

गुडूचीकाथकल्काभ्यां सपयस्कं घृतं
शृतम् । हन्ति वातं तथा रक्तं कुष्ठं
जयति दुस्तरम् ॥ ७६ ॥

गिलोयके काथ और कल्कके द्वारा दूधमे घृतको
पकावे । यह घृत-वातरक्त और दुष्ट कुष्ठको नष्ट
करता है ॥ ७६ ॥

अमृतादिघृत ।

अमृतायाः कषायेण कल्केन च महौ-
षधम् । मृद्वग्निना घृतं सिद्धं वातर-
क्तहरं परम् ॥ ७७ ॥ आमवातास्रवा-
तादीन्कृमिकुष्ठव्रणानपि । अर्शासि
गुल्मांश्च तथा नाशयेदाशु योजि-
तम् ॥ ७८ ॥

गिलोयके काथ और सोंठके कल्कके द्वारा मंद
मंद अग्निसे घृतको सिद्ध करे । यह घृत-वातरक्तको
दूर करनेवाला तथा आमवात, रक्तवातादि, कृमि,
कोढ, व्रण, ववासीर और गुल्म इन सबको दूर
करता है ॥ ७७ ॥ ७८ ॥

द्वितीय अमृतादिघृत ।

अमृतास्वरसविषकं सर्पिस्तत्कल्क-
साधितं पीतम् । अपहरति वातरक्त-
मुत्तानं चावगाहञ्च ॥ ७९ ॥

गिलोयके स्वरस और कल्कके द्वारा घृतको
पकावे । यह घृत-उत्तान और अत्यंत गम्भीर वात-
रक्तको दूर करता है ॥ ७९ ॥

द्वितीय गुडूचीघृत ।

अमृतायाः पलशतं जलद्रोणेंऽशशे-
षितम् । घृतप्रस्थं विपक्तव्यं कल्का-

नष्टौ पलानि च ॥ ८० ॥ चतुर्गुणेन
पयसा वातासृक्कुष्ठनाशनम् । काम-
लापांडुरोगघ्नं प्लीहकासज्वरापहम् ८१ ॥

गिलोय १०० पल लेकर एक द्रोण जलमें पकावे,
जब पकते पकते चौथाई भाग शेष रह जाय तब
उतारकर छान लेवे, फिर इसमें आठ पल गिलोयका
कल्क, घृत एक प्रस्थ और उत्तम गायका दूध ४
प्रस्थ डालकर उत्तम विधिसे घृतको सिद्ध करे । यह
घृत-वातरक्त, कोठ, कामला, पाण्डुरोग, प्लीहा,
खाँसी और ज्वरको दूर करता है ॥ ८० ॥ ८१ ॥

अमृतादिवृत ।

अमृता मधुकं द्राक्षा त्रिफला नागरं
बला । वासारग्वधवृश्चीवेदेवदारुत्रि-
कण्टकम् ॥ ८२ ॥ कटुका सवरी कृ-
ष्णा काशमर्यस्य फलानि च । रास्ना-
क्षुरकगन्धर्ववृद्धदारुघनोत्पलैः ॥ ८३ ॥
कर्कुरेभिः समैः कृत्वा सर्पिःप्रस्थं
विपाचयेत् । धात्रीरससमो देयो वा-
रित्रिगुणसंयुतः ॥ ८४ ॥ सम्यक्
सिद्धन्तु विज्ञातं भोज्ये पाने च
शस्यते । बहुदोषोत्थितं वातं रक्तेन
सह मूर्च्छितम् ॥ ८५ ॥ उत्तानं
चापि गम्भीरं त्रिकजङ्घोरुजातुजम् ।
क्रोष्टुशीर्षं महाशूले आमवाते सुदा-
रुणे ॥ ८६ ॥ दाहरोगोपसृष्टस्य
वेदनां चातिदुस्तराम् । मूत्रकृच्छ्रमु-
दावर्त्त प्रमेहं विषमज्वरम् ॥ ८७ ॥
एतान्सर्वान्निहन्त्याशु वातपित्तक-
फोत्थितान् । सर्वकालोपयोगेन वर्णा-
युर्बलवर्द्धनम् ॥ अश्विभ्यां निर्मितं श्रेष्ठं
घृतमेतदनुत्तमम् ॥ ८८ ॥

गिलोय, मुँलैठी, दास, त्रिफला, सोठ, खिरैटी,
अहूसा, अमलतास, पुनर्नवा, देवदारु, गोखरू,
कुटकी, जतावर, पीपल, कुम्भेरके फल, राम्ना,
नालमखाना, धंडकी जड़, विधारा, नागरमोथा और
कमल इनके कल्कके द्वारा घी एक प्रस्थ, आमलोका
रस २ प्रस्थ और जल ३ प्रस्थ सबको एकत्र करके

उत्तम विधिसे घृतको सिद्ध करे । जब यह अच्छे
प्रकारसे पक जाय तब इसको भोजन और पानमें
व्यवहार करे । यह घृत-बहुतसे दोषोंसे उत्पन्न हुए
वातरक्त, अत्यंत उभरा हुआ वातरक्त, गम्भीर वात-
रक्त, त्रिक, जंघा, ऊरु और जानुगत वातरक्त,
क्रोष्टुशीर्ष, महाशूल, दारुण आमवात, अत्यंत पीडा-
युक्त दुस्तर दाह, मूत्रकृच्छ्र, उदावर्त्त, प्रमेह, विष-
मज्वर और सर्व प्रकारके वातपित्त तथा कफसे उत्पन्न
हुए रोगोंको दूर करता है । इसको हमेशा सेवन
करनेसे-वर्ण, आयु और बलकी वृद्धि होती है ।
यह उत्तम घृत-अश्विनीकुमारोंने निर्माण किया
है ॥ ८२-८८ ॥

महागुडूचीघृत ।

अमृतायाः शतं प्राप्य जलद्रोणे वि-
पाचयेत् । चतुर्भागावशिष्टन्तु घृत-
प्रस्थं विपाचयेत् ॥ ८९ ॥ क्षीरं चतु-
र्गुणं तत्र दापयेन्मतिमान्निषक् ।
कल्कं चात्र प्रवक्ष्यामि यथावदनुप-
र्वशः ॥ ९० ॥ काकोली क्षीरकाको-
ली जीवकर्षभकौ च यत् । शताव-
री वयस्था च मधुकं नीलमुत्पलम् ९१
अश्वगन्धा च मूलानि स्थिरा कटु-
करोहिणी । ऋद्धिर्वृद्धिस्तथा मेदे
श्वदंष्ट्रा बृहतीद्वयम् ॥ ९२ ॥ गुडूची-
फलनिरास्नावासकं चापि संहरेत् ।
तदेकत्र समैर्भागैः पाचयेन्मृदुनाग्नि-
ना ॥ ९३ ॥ पानाभ्यञ्जननस्येषु परि-
षेके च दापयेत् । वातरक्तं सशोथा-
ढ्यं सदाहं क्रोष्टुशीर्षकम् ॥ ९४ ॥
खञ्जोरुस्तम्भवातश्च रक्तपित्तं सुदा-
रुणम् । बहुविधं वातकृच्छ्रं गृध्रसीं
वातकण्टकम् ॥ नाशयेद्योजितं सर्पि-
धन्वन्तरिवचो यथा ॥ ९५ ॥

गिलोयको १०० पल लेकर एक द्रोण जलमें पकावे।
जब पकते पकते जल चौथाई भाग बाकी रह जाय तब
उतारकर छान लेवे । फिर इस काथमें उत्तम गायका

यी एक प्रस्थ, गायका दूध ४ प्रस्थ तथा नीचे लिखी औषधियोंका कल्क दो दो तोला, काकोली, क्षीर-काकोली, जीवक, ऋषभक, शतावर, हरड, मुलैठी, नील कमल, असंगधकी जड, शालिपर्णी, कुटकी, ऋद्धि, वृद्धि, मेदा, महाभेदा, गोखरू, कटेरी, बड़ी कटेरी, गिलोय, फूलप्रियंगु, रास्ना और अड्डसा इनका कल्क मिलावे । सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिसे घृतको मन्द २ अग्निसे पकावे । इसको पान, अभ्यजन, नस्य और सेचनमें प्रयोग करे । यह घृत—अत्यन्त सूजनयुक्त वातरक्त, दाहयुक्त, क्रोष्टुशीर्षवात, खंजता, ऊरुस्तम्भ, दारुण रक्तपित्त, अनेक प्रकारका वात-कृच्छ्र, गृध्रसी और वातकण्ठरोग इन सबको यह दूर करता है ॥ ८९—९५ ॥

पिण्डतैल ।

शारिवासर्जमञ्जिष्ठा यष्टीसिक्थैः प्रयो-
न्वितैः । तैलं पक्त्वा प्रयोक्तव्यं
पिण्डाख्यं वातरक्तनुत् ॥ ९६ ॥

शारिवा, राल, मजीठ, मुलैठी और मोम इनके द्वारा दूधमें तैलको पकावे । यह पिण्डाख्य तैल—वातरक्तको दूर करता है ॥ ९६ ॥

द्वितीय पिण्डतैल ।

शारिवासर्जयष्ट्याह्वमधूच्छिष्टैः प-
योन्वितैः । सिद्धमेरण्डतैलं वा वात-
रक्तरुजापहम् । अपूतमथितस्यास्य
पिण्डतैलस्य योगतः ॥ ९७ ॥

शारिवा, राल, मुलैठी, मोम और दूध इनके द्वारा अडके तैलको पकावे । यह वातरक्तको दूर करता है, सर्पिण्ड तैलके योगमे गलित, मथित वातरक्त-की पीडा दूर होती है ॥ ९७ ॥

गुडूचीतैल ।

तुलां पचेज्जलद्रोणे गुडूच्याः पादशे-
षितम् । क्षीरद्रोणन्तु ताभ्याश्च
पचेत्तैलाढकं शनैः ॥ ९८ ॥ कल्कै-
र्मधुकमञ्जिष्ठा जीवनीयगणस्तथा ।
कुष्ठेलागुरुमृद्धीका मांसीव्याघ्रनखं
नखी । हरेणुश्रावणाव्योषशताहाश्रु-

ङ्गिशारिवा ॥ ९९ ॥ त्वक्पत्रागुरु-
विक्रान्ता स्थिरातामलकी तथा ।
नतं केसरह्रीबेरं पद्मकोत्पलचन्दन-
म् ॥ १०० ॥ सिद्धं कर्षसमैर्भागैः पा-
नाभ्यङ्गानुवासनैः । सेव्यं वातास्र-
जान्हन्ति सर्वधात्वन्तराश्रितान् ॥
॥ १०१ ॥ धन्यं पुंसवने स्त्रीणां ग-
र्भदं वातपित्तनुत् । स्वेदकंङ्गुरुजायास-
शिरःकम्पामयादितान् । हन्याद्गणकृ-
तान्दोषान्गुडूचीतैलमुत्तमम् ॥ १०२ ॥

गिलोयको एकतुला परिमाण लेकर एक द्रोण जल-में पकावे, जब पकते पकते जल चौथाई भाग बाकी रह जाय तब उतार कर छान लेवे । फिर इस काथमें उत्तम गायका दूध एक द्रोण और उत्तम तिलका तेल एक आढक तथा मुलैठी, मजीठ, जीवनीयगणकी औषधियें, कूट, इलायची, अगर, दाख, बालछड, वाघनख, नखीद्रव्य, रेणुका, गोरखमुण्डी, त्रिकुटा, सौंफ काकडाशिगी, शारिवा, दालचीनी, तेजपात, काली अगर, विष्णुकान्ता, शालिपर्णी, सुइआमला, तगर, नागकेशर, सुगंधवाला, पद्माख, क्रमोदिनी और चन्दन प्रत्येक औषधिका कल्क एक एक तोला डालकर उत्तम विधिसे तैलको सिद्ध करे । इस तैलका पान, अभ्यग और अनुवासनवस्तिमें प्रयोग करनेसे सर्व धानुगत वातरक्त रोग दूर होता है । यह तैल, स्त्रियोंको पुंस-वन कर्ममें पूज्य और पुत्रको देनेवाला, वातपित्त-नाशक, तथा पसीना, खुजली, शिरःकम्प, आर्दित और व्रणके विकार इन सबको दूर करनेवाला है ॥ १८-१०२ ॥

अमृताह्व तैल ।

गुडूचीमधुकं ह्रस्वपञ्चमूलीपुनर्नवा ।
रास्नाभैरण्डमूलश्च जीवनीयानि
लाभतः ॥ १०३ ॥ पलानां शतकै-
र्भागैर्विलापश्चशतं भवेत् । कोला-
न्विल्वयवान्माषान्कुलत्थांश्चाढको-
न्मितान् ॥ १०४ ॥ काश्मर्याणाश्च
शुष्काणां षोडशद्रोणवारिणि । सा-

ध्येज्जरं पूतं चतुर्द्रोणश्च शेषयेत् १०५
 तैलद्रोणं पचेत्तेन दत्त्वा पञ्चगुणं पयः ।
 पिष्ट्वा त्रिपालिकांश्चैव चन्दनोशीर-
 केशरम् ॥ १०६ ॥ पत्रैलाऽगुरुकुष्ठा-
 नि तगरं मधुयष्टिका । मञ्जिष्ठार्धप-
 लश्चैव तत्सिद्धं सर्वयौगिकम् ॥ १०७ ॥
 वातरक्ते क्षते क्षीणे भारते क्षीणरे-
 तसि ॥ वेपथौ क्षिप्तभग्नानां सर्वमेका-
 ङ्गरोगिणाम् ॥ १०८ ॥ योनिदोष
 मपस्मारमुन्मादं विषमज्वरम् ।
 हन्यात्पुंसवनञ्चैव तैलाद्यममृताह्व-
 यम् ॥ १०९ ॥

गिलोय, मुलैठी, लघुपंचमूल, पुनर्नवा, रास्ना, अंडकी जड और जीवनीयगणकी जितनी औषधिये मिल सके प्रत्येक १००-१०० पल लेवे, खिरैटी ५०० पल लेवे, वेर, बेल, जौ, उदद और कुलथी ये प्रत्येक एक एक आठक परिमाण तथा कुम्भरके सूखे फल एक आठक इन सबको सोलह द्रोण जलमे पकावे । जब पकते २ चार द्रोण जल अवशेष रह जाय तब उतारकर छान लेवे । फिर इस काथमे तिलका तेल १ द्रोण, गायका दूध ५ द्रोण तथा चन्दन, खस और नागकेशर ये तीनों तीन तीन पल, तेजपात, इलायची, अगर, कूठ, तगर, मुलैठी और मजीठ ये प्रत्येक दो २ तोले लेवे, इनका कल्क कर सबको यथाविधि मिलाकर तेलको पकावे । यह तेल-वातरक्त, क्षतक्षीण, वोझ ढोनेसे थके हुए, वीर्यक्षीण, कंप, क्षिप्त, भग्न, सर्व प्रकारके एकांगरोग, योनिदोष, अपस्मार, उन्माद और विषमज्वरमे अत्यंत हितकारी है और पुंसवन कर्ममें भी अत्यन्त उपयोगी है ॥ १०३-१०९ ॥

नागबलातैल ।

शुद्धां पचेन्नागबलां तुलान्तु जलार्म-
 णे पादकषायासिद्धम् । पाच्यन्तु तै-
 लाटकमत्र देयमजापयस्तैलविमिश्रि-
 तन्तु ॥ ११० ॥ नतं सयष्टीमधुकं स-
 कल्कं दत्त्वां पृथक् पञ्चपलं विपक्वम् ।

तद्वातरक्तं शमयत्युदीर्णं बस्तिप्रदा-
 नेन हि सप्तरात्रात् । दशाहयोगेन
 करोत्यरोगं पीतञ्च तैलोत्तममश्वि-
 जुष्टः ॥ १११ ॥

उत्तम शुद्ध नागबला एक तुला परिमाण लेकर एक द्रोण जलमे पकावे, जब पकते पकते जल चौथाई भाग शेष रह जाय तब उतार कर छान लेवे । इस काथमे तिलका तेल १ आठक और बकरीका दूध २ आठक परिमाण तथा तगर और मुलैठी प्रत्येकका कल्क पाँच २ तोले लेकर सबको यथाविधि मिलाकर मन्द २ अग्निसे तेलको पकावे । इस तेलको बस्तिके द्वारा प्रयोग करनेसे सात दिनमें घोर वातरक्त रोग दूर होता है । इस अश्विनीकुमारोंके निर्माणा किये हुए तेलको दश दिनतक पीनेसे वातरोगी आरोग्य होता है ॥ ११० ॥ १११ ॥

दशपाकबलातैल ।

बलाकषायकल्काभ्यां तैलं क्षीरच-
 तुर्गुणम् । दशपाकं भवेत्तेन वातासृ-
 ग्वातपित्तनुत् ॥ ११२ ॥ धन्यं पुंसवन-
 ञ्चैव नराणां शुक्रवर्द्धनम् । रेतोयोनि-
 विकारघ्नमेतद्वातविकारनुत् ॥ ११३ ॥

खिरैटीके काथ और कल्कके द्वारा एक प्रस्थ तेल और चौगुने दूधको मिला कर मंद २ अग्निसे पकावे । इस प्रकार तेलको दश बार पकावे तो यह दशपाकबलातैल तैयार होता है । यह तेल-वातरक्त और वातपित्तको दूर करता है । पुंसवनकर्ममे उत्तम, मनुष्योंके वीर्यको बढ़ानेवाला, वीर्यदोष और योनि-के रोगको हरनेवाला और वातविकारको नष्ट करनेवाला है ॥ ११२ ॥ ११३ ॥

शतपाकसहस्रपाकबलातैल ।

बलाकषायकल्काभ्यां तैलं क्षीरं समं
 पचेत् । सहस्रशतपाके वा वातासृ-
 ग्वातपित्तनुत् ॥ ११४ ॥ रसायनाभि-
 दं श्रेष्ठमिन्द्रियाणां प्रबोधनम् । जी-
 वनं वृंहणं स्वर्ग्यं शुक्रासृग्दोषनाश-

नम् ॥ ११५ ॥ बलातैलसहस्रेण
तथा पाकसहस्रकम् ॥ ११६ ॥

खिरैटीके कल्क और काथके द्वारा एक प्रस्थ तेलको चौगुने दूधमें पकावे । इस प्रकार सौ वार या हजार वार तेलको पकावे । यह शतपाकी अथवा सहस्र-पाकवाला बलातैल उत्तम रसायन है, इन्द्रियोंको चैतन्य करनेवाला, जीवन (प्राणरक्षक), वृहण (पुष्टिकारक), स्वरको शुद्ध करनेवाला, वीर्यके विकार और रुधिरके विकारोंको दूर करनेवाला है । खिरैटीके द्वारा तेलको हजारवार पकाना चाहिए ॥ ११४ ॥ ११५ ॥ ११६ ॥

पुनर्नवागुगुलु ।

पुनर्नवामूलशतं विशुद्धं रुबूकमूल-
श्च तथा प्रगृह्य । दत्त्वा पलं षोडश-
कञ्च शुण्ठ्याः संकुट्य सम्यग्विपचेद्-
घटेऽपाम् ॥ ११७ ॥ पलानि चाष्टा-
दश कौशिकस्य तेनाष्टशेषेण पुनः
पचेत्तु । एरण्डतैलं कुडवं च दद्यात्तथा
त्रिवृच्चूर्णपलानि पञ्च ॥ ११८ ॥
निकुम्भचूर्णस्य पलं गुडूच्याः पलद्वयं
चार्धपलं पलं वा । पलत्रयं त्र्यूषणचि-
त्रकानि सिन्धूत्थभल्लातविडङ्गका-
नि ॥ ११९ ॥ कर्ष तथा माक्षिकधातुचूर्णं
पुनर्नवायाः पलमेव चूर्णम् । चूर्णानि
दत्त्वा ह्यवतार्य शीते खादेन्नरः कर्ष-
समप्रमाणम् ॥ १२० ॥ वातास्रजं वृद्धि-
गदश्च सर्वं जयत्यवश्यं त्वथ गृध्रसीश्च ।
जङ्घोरुपृष्ठत्रिकवस्तिजश्च तथा मवातं
प्रबलं जयेत्तु ॥ १२१ ॥

पुनर्नवेकी जड १०० पल, अण्डकी जड १०० पल और सौंठ १६ पल इन सबको एकत्र कूटकर एक द्रोण जलमें पकावे । जब पकते २ जल आठवाँ भाग शेष रह जाय तब उतारकर छान लेव । फिर इस काथमे उत्तम शुद्ध गूगल ८ पल डालकर फिर पकावे । जब भावासा बन्द जाय अंडीका तेल एक कुडव परिमाण, निसोतका चूर्ण ५ पल, दंतीका चूर्ण चार

तोले, गिलेय दो पल या डेढ पल, त्रिकुटा, चीता, सैधानमक मिलावे और वायविडंग इन सबका चूर्ण ३ पल, सोनामाखोका चूर्ण एक तोला और पुनर्नवेक चूर्ण ४ तोले डालकर उत्तम विधिसे मन्द २ अग्निसे एकजीव कर ले । जब सिद्ध हो जाय तब स्वयंशीतल होनेपर उतार लेव । इससे प्रतिदिन एक तोला परिमाण खाय । यह गूगल-वातरक्त, बढे हुए सर्व-प्रकारके वातरक्त, गृध्रसीरोग, जंघागत, ऊरुगत, पृष्ठगत, त्रिकगत वात, वस्तिगत और प्रबल आमवा-तको दूर करता है ॥ ११७-१२१ ॥

चत्वारो माषका हीने मध्यमेऽष्टौ च
माषिकाः । श्रेष्ठे द्वादशकाः प्रोक्ता
वैद्यैर्विज्ञायते त्रिधा ॥ संसरत्वाद्गुरु-
त्वाद्वा गुग्गुलोः करणक्रमः ॥ १२२ ॥

चार माशेका कर्ष हीन होता है, आठ माशेका कर्ष मध्यम होता है और बारह माशेका कर्ष उत्तम होता है । इस प्रकार वैद्योंने तीन प्रकारका कर्ष माना है । सारक और भारीपन युक्त होनेसे यह गूगलका क्रम कहा है ॥ १२२ ॥

प्रस्थमेकं गुडूच्याश्च ह्यर्धप्रस्थन्तु गु-
ग्गुलोः । प्रत्येकं त्रिफलायास्तु तत्प्र-
माणं विनिर्दिशेत् ॥ १२३ ॥ सर्वमे-
कत्र संकुट्य काथयेन्नल्वणेऽम्भसि ।
पादशेषं परिस्त्राव्यं कषायं ग्राहये
द्विषक् ॥ १२४ ॥ पुनः पचेत्कषाय-
न्तु यावत्सान्द्रत्वमागतम् । दन्तीं
व्योषविडङ्गानि गुडूचीत्रिफलात्वचः ॥
॥ १२५ ॥ ततश्चार्द्धपलं चूर्णं गृह्णीयाद्वा
प्रति प्रति । कर्षन्तु त्रिवृतायाश्च सर्व-
मेकत्र चूर्णयेत् ॥ १२६ ॥ तस्मिन्सु-
सिद्धं विज्ञाय कवोष्णे प्राक्षिपेद्बुधः ।
ततश्चाग्निबलं ज्ञात्वा खादेत्कर्षप्रमा-
णतः ॥ १२७ ॥ वातरक्तं तथा कुष्ठं
गुदजान्यग्निसादनम् । कुष्ठव्रणं प्रमे-
हांश्च सामवातं भगन्दरम् ॥ १२८ ॥
आढ्यवातश्च श्वयथुं सर्वानैतान्य-

पोहति । अश्विभ्यां निर्मितः पूर्वम-
मृताख्यो हि गुग्गुलुः ॥ १२९ ॥

गिलोय १ प्रस्थ, गूगल आधा प्रस्थ और त्रिफलेकी प्रत्येक औषधि आधा आधा प्रस्थ लेवे, सबको एकत्र कूटकर एक द्रोण जलमें पकावे, जब पकते २ जल चौथाई भाग शेष रह जाय तब उतारकर छान लेवे । फिर इस काथमें दंती, त्रिकुटा, वायविडंग, गिलोय, त्रिफला और दालचीनी, प्रत्येकका चूर्ण दो दो तोले, निसोतका चूर्ण एक तोला डालकर एकजीव कर ले और चिकने वर्तनमें रक्खे । अग्निका बलाबल विचारकर इसमेंसे प्रतिदिन एक तोला प्रमाण खाय । यह गूगल-वातरक्त, कोढ, बवासीर, मंदाग्नि, कुष्ठ, व्रण, प्रमेह, आमवात, भगन्दर, आह्वयवात और सूजन इन सबको दूर करता है । यह पूर्वकालमें अश्विनीकुमारोंने निर्माण किया है ॥ १२३ ॥ १२४ ॥ १२५ ॥ ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ १२८ ॥ १२९ ॥

अमृतादिगुग्गुलु ।

द्विप्रस्थममृतायाश्च प्रस्थमेकन्तु गुग्गु-
लोः । प्रत्येकं त्रिफलाप्रस्थं वर्षाभूप्र-
स्थमेव च ॥ १३० ॥ सर्वमेकत्र संकु-
ट्य साधयेन्नलवणेऽम्भासि । पुनः पचे-
त्पादशेषं यावत्सान्द्रत्वमागतम् १३१
दन्तीचित्रकमूलानां कणाविश्वाफ-
लत्रिकम् । गुडूचीत्वग्विडङ्गानां प्रत्ये-
कार्द्धपलोन्मितम् ॥ १३२ ॥ त्रिवृता
कर्षमेकन्तु सर्वमेकत्र चूर्णयेत् । सि-
द्धे चोष्णे क्षिपेत्तत्र त्वमृतागुग्गुलुः
परम् ॥ १३३ ॥ अतो यथाबलं खादे-
दम्लपित्ती विशेषतः । वातरक्तं तथा
कुष्ठं गुदजान्यत्रिसादनम् ॥ १३४ ॥
कुष्ठव्रणं प्रमेहांश्च सामवातं भगन्द-
रम् । नाड्याढ्यवातं श्वयथुं हन्या-
त्सर्वामियांस्तथा । अश्विभ्यां निर्मितो
ह्येष ह्यमृताद्यस्तु गुग्गुलुः ॥ १३५ ॥

गिलोय २ प्रस्थ, गूगल १ प्रस्थ, त्रिफलेकी प्रत्येक औषधि एक एक प्रस्थ और पुनर्नवा १ प्रस्थ, इन सबको एकत्र कूट करके एक द्रोण जलमें पकावे । जब पकते २ जल चौथाई भाग बाकी रह जाय तब उतारकर छान लेवे । फिर इस छाने हुए काथको पकावे, जब पकते १ गाढा होजाय तब दंती, चीतेकी जड़, पीपल, सोठ, त्रिफला, गिलोय दालचीनी, और वाय-विडंग प्रत्येक औषधिका चूर्ण दो-दो तोले और निसो-तका चूर्ण एक तोला सबको मिलाकर खूब चलाकर एकमएक कर लेवे । इस अमृतागूगलको बलानुसार सेवन करे । यह विशेष कर अम्लपित्त, वातरक्त, कोढ, बवासीर, मन्दाग्नि, कुष्ठ, व्रण, प्रमेह, आमवात, भगन्दर, नाडीगत वात, आह्वयवात, सूजन और सर्व प्रकारके रोगोको दूर करता है । यह अमृतागूगल अश्विनीकुमारोंने निर्माण किया है ॥ १३०-१३५ ॥

सूर्यप्रभावटिका ।

चित्रकं त्रिफलानिम्बपटोलमधुय-
ष्टिका । वराङ्गं केसरश्चैव जीवन्ती
चाम्लवेतसम् ॥ १३६ ॥ रामसेनक-
दाव्येलासुस्तापर्पटकं तथा । तुत्थकं
कटुका भार्ङ्गी चव्यं पद्मकदीप्यकौ ॥
॥ १३७ ॥ पिप्पली मरिचं दन्ती शटी
शुण्ठी सपुष्करम् । विडङ्गं पिप्पली-
मूलं जीरकं देवदारु च ॥ १३८ ॥
पद्मकं कटुकं रास्ना डुरालम्भामृता
त्रिवृत । लतातुरुष्कतालीशौ वृक्षा-
म्ललवणत्रयम् ॥ १३९ ॥ धान्यकं
चाजमोदा च कारवी धातुमाक्षिका ॥
जातीफलं तुगाक्षीरी वाजिगन्धा च
दाडिमम् ॥ १४० ॥ कंकोलकमुशी-
रश्च द्विक्षारामलकं तथा । एतानि
पलमात्राणि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् ॥
॥ १४१ ॥ गिरिजस्य पलान्यष्टौ द्वि-
पलश्चैव गुग्गुलोः । प्रस्थमेकं सिताया
श्च घृतस्य कुडवं तथा ॥ १४२ ॥
गिरिजेन समं लोहं प्रस्थार्धं माक्षि-

कस्य च । सर्वमेकत्र संमिश्र्य स्नि-
ग्धभांडे निधापयेत् ॥ १४३ ॥ वा-
तव्याधिमूरुस्तम्भमर्दितं गृध्रसीं त-
था । विद्रधिं श्लिपदं गुल्मं पांडुरोगं
हलीमकम् ॥ १४४ ॥ क्षतक्षयमपस्मा-
रमन्त्रवृद्धिश्च नाशयेत् । अरोचकं
पार्श्वशूलमुदरश्च भगन्दरम् ॥ १४५ ॥
हृद्रोगशूलनुत्कम्पविषमज्वरनाशनम् ।
वर्षोपयोगात्कुरुते वलीपलितना-
शनम् ॥ १४६ ॥ उरःक्षतश्च यात्रो-
गान्मुखरोगांश्च दारुणान् । नाशये-
द्गुटिकाश्चापि चूर्णं पाणितलोन्मि-
तम् ॥ १४७ ॥ विविधान्नानि भुञ्जीत
यथेष्टश्च यथासुखम् । रसैर्मांसैश्च यू-
षैश्च क्षीरैर्द्राक्षां शुभां पिबेत् ॥ १४८ ॥
मेधां संजनयेद्दीप्तिं जीवेद्द्वर्षशतत्रयम् ।
वन्ध्यानां पुत्रदा श्रेष्ठा शुक्रवृद्धिक-
रा परा ॥ १४९ ॥ गुटिका भास्करी
नाम्ना प्रोक्ता देवेन शम्भुना । प्रमेहं
रक्तपित्तश्च सामवातमहाक्षयम् ॥ १५० ॥
नाडीव्रणांश्च घोरांश्च ह्यपचीश्च प्रणा-
शयेत् । श्वयथुश्च शिरोरोगं कामला-
श्च नियच्छति ॥ १५१ ॥ धात्विन्द्रि-
यबलक्षीणो हतभो हतपौरुषः ।
भवेदनेन युक्तो ना बलधातुपरा-
क्रमैः ॥ दृष्टिपुष्ट्या स युक्तश्च निर्वि-
कारो निरामयः ॥ १५२ ॥ अग्नि-
दीप्तियुतो हृष्टो दीर्घायुः पुरुषो भ-
वेत् । ये वातप्रभवा रोगा ये च पि-
त्तसमुद्भवाः । कफरोगाश्च ये केचि-
द्द्वन्द्वजं सन्निपातजम् ॥ १५३ ॥ ते
सर्वे प्रशमं यान्ति भास्करोण तमो
यथा । रोगविद्राविणी प्रोक्ता गुटी
सूर्यप्रभा मता ॥ १५४ ॥

चीता, त्रिफला, नीमकी छाल, परवल, मुलैठी,
दालचीनी, नागकेशर, जीवंती, अमलवेत, चिरायता

दारुहलदी, इलायची, नागरमोथा, पित्तपापडा, तूति-
याँ, कुटकी, भारगी, चव्य, पद्माख, अजवायन,
अजमोद, पीपल, काली मिरच, दंती, कचूर, सोंठ,
पोहकरमूल, वायविडग, पीपलामूल, जीरा, देव-
दारु, पद्माख, कुटकी, रास्ता, धमासा, गिलोय,
निसोत, लताकस्तूरी, लोबान, तालीशपत्र, विषां-
बिल, तीनो लवण, धनियाँ, अजमोद, कलौंजी,
सोनामाखी, जायफल, वंशलोचन, असंगंध, अना-
रका वकल, शीतलचीनी, खस, जवाखार, सजी-
खार और आमले ये प्रत्येक औषधि चार चार
तोले लेकर वारीक चूर्ण करले, तथा शिलाजीत
आठ पल, गूगल दो पल, मिश्री एक प्रस्थ, घी एक
कुडव, लोहेकी भस्म आठ पल और सोनामाखीकी
भस्म आधा प्रस्थ इन सबको एकत्र मिलाकर १
उत्तम चिकने वासनमें भरकर रख देवे । यह
सूर्यप्रभावटिका—सर्व प्रकारके वातरोग, उरुस्तम्भ,
आर्दित, गृध्रसी, विद्रधि, श्लिपद, गुल्म, पाण्डुरोग,
हलीमक, क्षतक्षय, अपस्मार, अन्त्रवृद्धि, अरोचक,
पार्श्वशूल, उदररोग, भगन्दररोग, हृदयरोग, शूल,
कम्प और विषमज्वरको नष्ट करती है । इसको एक
वर्षपर्यन्त सेवन करनेसे वली और पलितरोग
नष्ट होता है तथा उरःक्षत और दारुण मुखरोगको
यह गोली अथवा उपरोक्त औषधिका एक तांला
प्रमाण सेवन किया हुआ चूर्ण दूर कर देता है ।
इसपर अनेक प्रकारके यथेष्ट और सुखकारक अन्न
पान सेवन करे तथा अनेक प्रकारके मांसरस, यूप,
दूध और दाख आदि स्वादिष्ट पदार्थ सेवन करे ।
इसके प्रभावसे मेधा दीपन होती है, तीन सौ वर्षकी
अवस्था होती है, वन्ध्या स्त्रियोंके उत्तम पुत्र उत्पन्न
होता है, वीर्यकी वृद्धि होती है । यह सूर्यप्रभा-
वटिका पूर्वकालमें महादेवने कही थी । यह गोली—
प्रमेह, रक्तपित्त, आमवात, राजयक्ष्मा, नाडीव्रण,
दारुण रोग, अपची, सूजन, शिरोरोग और काम-
लाको नष्ट करती है । जिन मनुष्योंकी धातु, इन्द्रिये
और बल क्षीण हो गया है, जिनकी कांति नष्ट हो गई
है और जो पुरुषार्थहीन है वे सब इसके प्रभावसे
बल, धातु और पराक्रमयुक्त हो जाते हैं तथा उनकी
दृष्टि और शरीर पुष्ट होकर विकार और रोगरहित
हो जाते हैं एवं उनकी अग्नि अत्यंत दीपन होती है

१ तूतिया सुद्ध करके डालना चाहिये ।

और बहुत दिनोतक जीते रहते हैं । जो वातजनित रोग है, जो पित्तजनित रोग है तथा कफजनित जो रोग है और जो द्वन्द्वज तथा सान्निपातज रोग है वे सब इस सूर्यप्रभावटिकाके प्रतापसे शीघ्र ही शमन हो जाते हैं । जिस प्रकार सूर्यसे अंधकार नष्ट हो जाता है । यह सूर्यप्रभागुटिका-रोगोको दलित करनेवाली है ॥ १३६-१५४ ॥

कैशोरगुग्गुलु ।

वरमहिषलोचनोदरसन्निभवर्णस्य गुग्गुलोः प्रस्थम् । प्रक्षिप्य तोयराशौ त्रिफलाश्च यथोक्तपरिमाणाम् ॥ १५५ ॥
 द्वात्रिंशच्छिन्नरुहा पलानि देयानि यत्नेन ॥ १५६ ॥ विपचेदप्रमतो दूर्वा संघट्टयन्मुहुर्यावत् । अर्धक्षयितं तोयं जातं ज्वलनस्य सम्पर्कात् ॥ १५७ ॥
 अवतार्य्य बह्वपूतं पुनरपि सम्पादयेदयःपात्रे । सान्द्रीभूतं तस्मिन्नवतार्य्य हिमोपलप्रस्थे ॥ १५८ ॥
 त्रिफलाचूर्णार्धपलं त्रिकटोश्चूर्णं षडक्ष परिमाणम् । कृमिरिपुचूर्णार्धपलं कर्ष कर्षं त्रिवृद्धन्त्योः ॥ १५९ ॥
 पलमेकन्तु गुडूच्या दत्त्वा संचूर्ण्य यत्नेन । उपयुज्य चानुपानं यूषं क्षीरं सुगन्धिसलिलञ्च ॥ १६० ॥
 इष्टाहारविहारी भेषज्यमुपयुज्य सर्वकालमिदम् । तनुरोधिवातशोणितमेकजमथ सर्वजं जयति ॥ १६१ ॥
 सुतपरिशुष्कं स्फुटितं जीर्णं वा जानुजं वापि । व्रणकासकुष्ठगुल्मं श्वयथूदरपांडुमेहांश्च ॥ १६२ ॥
 मन्दाग्निश्च विबद्धं प्रमेहपिटिकांश्च नाशयत्याशु । सततं निषेव्यमाणः कालवशाद्भ्रान्ति सर्वगदान् ॥ १६३ ॥
 अभिभूय जरादोषं करोति कैशोरकरूपम् ॥ १६४ ॥ प्रत्येकं त्रिफलाप्रस्थं जलं तत्र षडाढकम् । गुडबहुगुगुलोः पाकः सन्धेयस्तु विशेषतः ॥ १६५ ॥

भैसके नेत्रके पेटके समान उत्तम भैसिया गूगल ६४ तोले, त्रिफलेकी प्रत्येक औपधि पृथक् पृथक् एक एक प्रस्थ और गिलोय ३२ पल इन सबको एकत्र एक द्रोण जलमे पकावे और खूब कर-छोसे चलाता जाय । जब पकते पकते चौथाई भाग जल शेष रह जाय तब उतारकर छान लेवे (किन्तु मूलमे लिखा है कि, आधा भाग जल शेष रहने पर उतार लेना चाहिये सो आधा शेष रखनेसे काथ ठीक नहीं होसकता । इसलिये वृद्ध वीर्योक्त उपदेशसे चतुर्थांश ही शेष रखना चाहिए) फिर इस काथको पात्रमे भरके अग्निपर चढाकर पकावे । जब पकते-गाढा हो जाय तब उतार लेवे, फिर इसमे सफेद मिश्री या कन्द एक प्रस्थ, त्रिफलेका चूर्ण २ तोले, त्रिकुटेका चूर्ण ६ तोले, वायविडंगका चूर्ण २ तोले, निसोत १ तोला, दंती १ तोला और गिलोयका चूर्ण ४ तोले, सबको यथाविधि मिलाकर खूब करछोसे चला देवे । इसको यूप, दूध अथवा सुगन्धित जलके साथ सेवन करे । इसपर इच्छानुसार आहार, विहार करे । इस गूगलको सदैव सेवन करनेसे शरीरको रोकनेवाली, एकदोपज, द्विदोपज, त्रिदोपज, स्रवता हुआ, स्फुट हुआ, सूखा हुआ, बहुत पुराना और जानुओतक प्राप्त हुआ ऐसा वातरक्तरोग अवश्य दूर होता है तथा व्रण, खांसी, कोढ़, गुल्म, सूजन, उदररोग, पाण्डुरोग, प्रमेह, मंदाग्नि, मलबद्ध और प्रमेहपिटिका भी दूर हो जाती है । यह निरंतर सेवन किया हुआ कालके वश हुए रोगोको जीतता है । जरा अवस्थाको दूर करके फिरसे नवयौवनयुक्त करता है । इसमे त्रिफलेकी प्रत्येक औपधि पृथक् पृथक् एक एक प्रस्थ लेनी चाहिये, जल छः आढक परिमाण लेना चाहिए और विशेष कर गूगलका पाक गुडके समान करना चाहिए ॥ १५५-१६५ ॥

सिंहनादगुग्गुलु ।

अष्टौ पलान्यत्र पलं कषायाः प्रस्थं पृथक् शुद्धफलत्रयस्य । दत्त्वा पचेद्द्रोणयुगे जलस्य पादावशेषं पुनरेव वैद्यः ॥ १६६ ॥
 दन्तीत्रिवृद्धयुषणवा-
 नरीणां विडङ्गमुस्तात्रिफलामृता-
 नाम् । कट्यूग्रगन्धात्रिकमाणकानां

सपारदानाश्च सगन्धकानाम् ॥१६७॥
 पलार्धमानप्रमितं सचूर्णं दद्याद्विपके
 पुनरेव तत्र । फलानि संचूर्ण्य च
 कातकानि सहस्रसंख्याकलितानि
 पश्चात् ॥ १६८ ॥ खादेत्तु माषद्वितयं
 प्रवृत्तं तोयादिकं देयमतोऽनुपाने ।
 आमानिलं सन्धिगतं सशूलं शि-
 रोगतं जानुकाटीस्थितञ्च ॥ १६९ ॥
 शोषातिवृत्तिं विषमज्वरार्तिं प्रमे-
 हकुष्ठानि भगन्दरञ्च । हन्यान्न-
 राणामिति सिंहनादो मेदो मरु-
 च्छेषमगदानपुरोऽयम् ॥१७०॥ दाहोऽ-
 त्यन्तप्रवृत्तिर्वा विकारोऽल्पोऽपि चे-
 द्बहुः । तत्कृतस्तु तदा तत्र तक्रभक्तं
 हितं पिबेत् । उद्वर्त्तनं शीतजलस्नान-
 ञ्च शयनं तथा । विरेकातिशयं
 कुर्यात्सिंहनादे यतः सुधीः ॥१७१॥
 ज्ञात्वा बलं शरीरे तु दद्यादेवं न वा
 भिषक् । तोयारणनालगोक्षीरैः क्रमा-
 त्पक्वं विशुद्धयति ॥ फलं कतकसं-
 जन्तु कृत्वा चूर्णं ततः क्षिपेत् ॥१७२॥

गूगल ८ पल और त्रिफलेकी प्रत्येक औषधि एक
 एक ग्रंथ लेकर दो द्रोण जलमे पकावे। जब पकते २
 चौथाई भाग जल शेष रह जाय तब उतारकर छान
 लेवे। फिर इस काथको अग्निपर चढाकर गुडपाक-
 की तरह पकावे। गाढा होनेपर दती, निसोत, त्रिकुटा,
 कौंचके बीज, वायविडंग, नागरमोथा, त्रिफला,
 गिलोय, कुटकी, वच, चीता, मानकन्द, पौरेकी
 भस्म और शुद्ध गन्धक प्रत्येक दो २ तोले और
 निर्मली फल १००० लेवे, सबका एकत्र चूर्ण करके
 मिला देवे। प्रतिदिन इसमेंसे दो मासे जल दूधादिके
 अनुपानके साथ सेवन करे। यह सिंहनादगूगल-
 आमवात, सन्धिगत वात, शूल, गिरोगत वात, जानु-
 गत वात, कटिगत वात, शोष, विषमज्वर, प्रमेह, कोढ,
 भगन्दर, मेदरोग, वातरोग और सब प्रकारके कफ-
 रोगोंको दूर करता है। जो इसको सेवन करनेसे

१ इसके अभावमें रससिन्दूर डाल देना चाहिये।

अत्यन्त दाह हो अथवा अन्यान्य थोड़े बहुत किसी
 प्रकारके विकार मालूम हो तो इसके ऊपर तकके साथ
 भात खाय तथा शीतल और सुगन्धित पदार्थाका
 शरीरपर उबटन करे, शीतल जलसे स्नान करे और
 शीतल भूमिमें शयन करे। जो इस सिंहनादगूगलको
 सेवन करनेसे अत्यन्त दस्त होने लगे और रोगी
 बलहीन हो जाय तो इसका सेवन बन्द कर देवे।
 अथवा रोगीके बलानुसार इसको सेवन करावे। कत-
 कफलशोधनविधि—निर्मलीके फलोंको लेकर जल,
 कांजी और गायके दूधमे क्रमसे पकावे तो कतकफल
 शुद्ध हो जाते हैं। पश्चात् इनका चूर्ण करके उपरोक्त
 औषधिमे मिला देवे ॥ १६६-१७२ ॥

द्वितीय सिंहनादगुग्गुल ।

पलत्रयं कषायस्य त्रिफलायाः सुचूर्ण-
 तम् । सौगन्धिकं पलञ्चैवं कौशिकस्य
 पलत्रयम् ॥ १७३ ॥ कुडवं चित्रतैलस्य
 सर्वमादाय यत्नतः । पाचयेत्पाकवि-
 द्वेद्यः पात्रे लोहमये दृढे ॥१७४॥ हन्ति
 वातं तथा पित्तं श्लेष्मिणं खञ्जपंगुताम्।
 श्वासं सुदुर्जयं हन्ति कासं पञ्चविधं
 तथा ॥१७५॥ कुष्ठानि वातरक्तञ्च गुल्म-
 शूलोदराणि च । आमवातं जयेदेतद-
 पि वैद्यविवर्जितम् ॥ १७६ ॥ मासाद-
 स्योपयोगेन जरापलितनाशनम्। सर्पि-
 स्तैलरसोपेतमश्रीयाच्छालियष्टिकम्
 ॥ १७७ ॥ सिंहनाद इति ख्यातो
 रोगवारणदर्पहा । वह्नेर्दासिकरं पुंसां
 भाषितं दंडपाणिना ॥ १७८ ॥ अत्रा-
 हुस्त्रिफलाकाथं पृथक् त्रिपलसम्मितम्।
 किञ्चिन्निर्याति चैरंडस्नेहपाकेऽधिके
 खरे ॥ १७९ ॥

त्रिफलेका काथ १२ तोले, शुद्ध गन्धकका चूर्ण ४
 तोले, गूगल १२ तोले और अंडीका तेल १६ तोले,
 सबको यत्नपूर्वक लेकर पाकको जाननेवाला वैद्य
 उत्तम लोहके दृढ पात्रमें पकावे। यह सिंहनादगू-
 गल—वातजनितरोग, पित्तजनितरोग, कफजनितरोग,
 खजता, पंगुता, दुस्तर श्वास, पाँच प्रकारकी खोंसी,
 कोढ, वातरक्त, गुल्म, शूल, उदररोग और वैद्य करके

त्याग किया हुआ आमवात रोग, इन सबको दूर करता है। इसको नियमपूर्वक एक महीनेतक सेवन करनेसे—जरा (बुढापा) और पलित (विना ही अवस्थाके वालोका सफेद हो जाना) रोग नष्ट होते हैं। इसपर—घी, तैल और मांसरस इनके साथ शालिचावल और सौंठीचावलोका भात खाय। यह सिंहनादगूल—रोगरूपी हाथियोंके दर्पको भंजन करनेवाला है एवम् अग्निको दीपन करनेवाला है। इसको महादेवने कहा है। यहां त्रिफलेकी प्रत्येक औषधिका काथ तीन २ पल लेना चाहिए। स्नेहपाक अधिक खर करनेसे अण्डीका तेल थोडा निकलता है ॥ १७३-१७९ ॥

धान्यतुम्बुरुशुण्ठीनां मांसकूप्मांड-
माषयोः। गुडूच्या गुंगुलोश्चैव प्रस्थं
षोडशभिः पलैः ॥ १८० ॥

धनियाँ, तुम्बुरु, सोठ, मांस, पेठा, उडद, गिलोय और गूगल इन सबका १६ पलका एक प्रस्थ होता है ॥ १८० ॥

चन्द्रप्रभावाटिका।

कृमिरिपुदहनव्योषत्रिफलाभरदारु-
चव्यभूनिम्बाः। मागधिमूलं मुस्तं
शटीवचाधालुमाक्षिकम् ॥ १८१ ॥
लवणं क्षारनिशायुगकुस्तुम्बुरुगज-
कणातिविषा ॥ १८२ ॥ कर्षाशिका-
न्येव समानि कुर्यात्पलाष्टकं चाशम-
जतु प्रदद्यात्। निष्पत्रशुद्धस्य पुरस्य
धीमान्पलद्वयं लोहरजस्तथैव ॥ १८३ ॥
सिताचतुष्कं पलमत्र वा स्यान्त्रिकु-
म्भकुम्भं त्रिसुगन्धियुक्तम्। पृथक्पलं
चूर्णमथावपेच्च चन्द्रप्रभयं गुटिका
विधेया ॥ १८४ ॥ ज्वरातिसारग्रह-
णीविकारांश्चार्शांसि निर्नाशयते
षडेव। भगन्दरान्कामलपांडुरोगान्-
ष्टस्य वद्वैः कुरुते प्रदीप्तिम् ॥ १८५ ॥
हन्त्यामयान्पित्तकफानिलोत्थान्नाडी-
गते मर्मगते व्रणे च। क्षतक्षये गृध्र-

सियक्ष्मणोश्च मेहे गजाख्ये प्रदरे प्र-
योज्या ॥ १८६ ॥ शुक्रक्षये चाशम-
रिमूत्रकृच्छ्रे शुक्रप्रवाहेऽप्युदरामये
च। शम्भुं समभ्यर्च्य कृतप्रसादं प्रा-
प्ता गुठी चन्द्रमसः प्रसादात् ॥ १८७ ॥
न पानभोज्ये परिहारमस्ति न शीत-
वातातपमैथुने वा। भक्तस्य पूर्व
सततं प्रयोज्या तक्रानुपानाप्यथ
मस्तुना वा ॥ १८८ ॥ अजारसो
जाङ्गलजो रसो वा पयोऽथवा शी-
तजलानुपानम् ॥ १८९ ॥ शुक्रदोषा-
न्निहन्त्यष्टौ प्रमेहांश्चैव विशतिः।
वलीपलितानिर्मुक्तो वृद्धोऽपि नरु-
णायते ॥ १९० ॥

वायविडग, चीता, त्रिकुटा, त्रिफला, देवदारु, चव्य, चिरायता, पीपलामूल, नागरमोथा, कचूर, बच, सोनामार्खा, सैधानमक, जवाखार, हलदी, दारुहल्दी, धनियाँ, गजपीपल और अतीस ये प्रत्येक औषधि एक २ तोला, शिलाजीत ८ पल, पत्ररहित और शुद्ध गूगल २ पल, लोहेका चूर्ण २ पल, मिश्री ४ पल, निसोत, दन्ता और त्रिजातक प्रत्येकका चूर्ण चार २ तोले इन सबको एकत्र मिलाकर उत्तम विधिसे कूट पीस कर गोली बनावे। इसको चन्द्रप्रभावाटिका कहते हैं। यह गोली—ज्वर, अतीसार, संग्रहणी, छ' प्रकारकी बवासीर, भगन्दर, कामला, पाण्डुरोग, मंदाग्नि, पित्त, कफ और वातजनित रोगे, नाडीगत, मर्मगत व्रण, क्षतक्षय, गृध्रसी, राज-यक्ष्मा, हस्तिमेह, प्रदर, शुक्रक्षय, पथरी, मूत्रकृच्छ्र, वीर्यका गिरना और सर्वप्रकारके उदररोगोंमें हितकारक है। किया है प्रसन्न जिनको ऐसे सदाशिवको पूजकर चन्द्रमाके प्रसादसे यह उत्तम गोली प्राप्त हुई है। इसपर भोजन और पानका कुछ परहेज नहीं है तथा शीत, पवन, धूप और मैथुनका भी परहेज नहीं है। इसको भोजनसे पहिले सदैव तक्रके साथ अथवा दर्हीके तोडके साथ, वकर्के मांसरमके साथ, जाङ्गल जीवोंके मासरसके साथ, किवा दूधके साथ अथवा शीतल जलके साथ सेवन करे। यह चन्द्रप्रभावाटिका आठ प्रकारके शुक्रदोष, बीस प्रकारके

प्रमेह और बलीपलितरोगोको दूर करके वृद्ध मनुष्य-
को भी तरुणके समान कर देती है ॥ १८१-१९० ॥

शिवसिद्धान्तोक्त बृहच्छिवगुटिका ।

काले रवितापाठ्ये चायःपात्रे शिला-
जतु प्रवरम् । त्रिफलारससंयुक्तं
त्र्यहं विशुद्धं पुनः शुष्कम् ॥ १९१ ॥
दशमूलस्य गुडूच्या रसे बलायास्त-
था पटोलस्य । मधुकरसे गोमूत्रे त्र्य-
हं त्र्यहं भावयेत्क्रमशः ॥ १९२ ॥ एका-
हं क्षीरेण तु ततः परं भावयेत्पुनः
शुष्कम् । सप्ताहं भाव्यं स्यात्काथे-
नेषां यथालाभम् ॥ १९३ ॥ काको-
ल्यौ द्वे भेदे विदारियुग्मं शतावरी
द्राक्षा । वृद्धियुगर्षभवीरा मुण्डित-
काजीवांशुमत्यश्च ॥ १९४ ॥ रास्ना-
पुष्करचित्रकदन्तीभकणाकलिङ्गच-
व्याश्च । कटुका शृङ्गी पाठा चैतानि
पलांशकानि कार्याणि ॥ १९५ ॥
अष्टगुणसाधितानां रसेन पादांशके-
न भाव्यं स्यात् । गिरिजस्यैवं भा-
वितशुद्धस्य पलानि दश षड् वा ॥
॥ १९६ ॥ द्विपलञ्च विश्वधात्रीमा-
गधिकाकर्कटाख्यमरिचानाम् । तु-
गाक्षीरीत्वन्नागदलैलानां मन्त्रयि-
त्वा तु ॥ १९७ ॥ गिरिजस्य षोडश-
पलैर्गुटिकाः कार्यास्ततोऽक्षसमाः
॥ १९८ ॥ ताः शुष्का नवकुम्भे जा-
तीपुष्पाधिवासिते स्थातव्याः । ता-
सामेका काले पेया भक्ष्यापि वा स-
त्तम् ॥ १९९ ॥ क्षीरसदाडिमस्साः
सुरासत्रञ्च मधुकशिशिरतोयानि ।
आलोक्य गुणं तासामनुपाने वा प्र-
शस्यन्ते ॥ २०० ॥ सुजीर्णलघ्वन्नप-
योर्जागलनिर्यहयूषभोजी स्यात् ।

सप्ताहं यावदतः परं भवेत्सर्वसामा-
न्यः ॥ २०१ ॥ भुक्त्वापि भक्षतेऽग्रं य-
दृच्छया नोद्बहेद्भयं किञ्चित् । निरु-
पद्रवा प्रयुक्ता सुकुमारैः कामिभि-
श्चैव ॥ २०२ ॥ संवत्सरं प्रयुक्ता हन्त्ये-
षा वातशोणितं प्रबलम् । बहुवार्षि-
कमपि गाढं यक्ष्माणं चाढ्यवातञ्च ॥
॥ २०३ ॥ ज्वरयोनिशुक्रदोषप्लीहा-
र्शःपांडुरोगहृद्ग्रहणी- । ब्रध्मवमिगु-
ल्मपीनसहिवकाकासारुचिधासान् ॥
॥ २०४ ॥ जठरं शिवत्रं कुष्ठं जाड्यं
क्लैब्यं मदक्षयं शोषम् । उन्मादमप-
स्मारौ वदनाक्षिशिरोरोगदासर्वान् ॥
॥ २०५ ॥ आनाहमतोसारं सासृ-
ग्दरकामलां प्रमेहांश्च । यकृदर्बुदानि
विद्रधिं भगन्दरं रक्तपित्तञ्च ॥ २०६ ॥
अतिकाश्यमतिस्थौल्यं स्वेदमापे प्ली-
हगदञ्च निहन्ति । दंष्ट्राविषमपि चोग्रं
गराणि चैषां बहुप्रकाराणि ॥ २०७ ॥
मन्त्रौषधप्रयोगानरिप्रयुक्तांस्तांत्रि-
कास्तथा बाधाः । पाप्मालक्ष्मी चै-
यं शमयति गुटिका शिवा नाम्नी
॥ २०८ ॥ बल्या वृष्या धन्या कान्ति-
वर्णयशःश्रीकरी चैयम् । दद्यान्नृप-
सदृशतां जयति वादे मुखश्चा सर्व-
म् ॥ २०९ ॥ प्रकृतिमेधासुस्मृतिबु-
द्धिबलयुक्तस्तथा दृढशरीरः । पुष्ट्यो-
जोवर्णेन्द्रियतेजोबलसंपदोपेतः २१०
वलिपलितरोगरहितो जीवेद्वै शर-
दां शतं स पुरुषः । संवत्सरप्रयो-
गाद्वाभ्यां तु शतानि चत्वारि ॥ २११ ॥
सर्वामयाजिद्विहितं सुनिभिर्भक्त्या
रसायनं रहस्यम् । शिवगुटिकेति
रसायनसुक्तं गिरिशेन गणपतये २१२ ॥

उत्तम शिलाजीतको ले कर सूर्यकी प्रचंड धूपमे लोहेके पात्रमे रख कर तीन दिनतक त्रिफलेके रसकी भावना देवे । इस प्रकार वारंवार भावना देवे और वारंवार धूपमे सुखावे । फिर दशमूल, गिलोय, खिरैटी, पटोल और मुलैठी इनके रस अथवा काथमे और गोमूत्रमे क्रम क्रमसे तीन तीन दिनतक भावना देवे, फिर एक दिन दूधमें भावना दे कर धूपमे सुखा लेवे, पश्चात् काकोली, क्षीरकाकोली, मेदा, महामेदा, विदारी, क्षीरविदारी, शतावर, दाख, वृद्धि, ऋद्धि ऋषभक, जीवक, धीकुवार, गोरख-मुण्डी, जीवन्ती, पृष्टिपर्णी, रायसन, पोहकरमूल, चीता, दंती, गजपीपल, इन्द्रजौ, चन्द्य, कुटकी, काकड़ाशिगी और पाढ ये प्रत्येक औषधि चार चार तोले ले कर अठगुने जलमे पकावे । जब पकते पकते जल चौथाई भाग बाकी रह जाय तब उतारकर छान लेवे, फिर इस काथमें उपरोक्त शिलाजीतको सात दिनतक भावना देवे तो शिलाजीत अच्छे प्रकारसे शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध किया हुआ शिलाजीत १६ पल, सोठ, आमले, पीपल, काकडा-शिगी, काली मिरच, वंशलोचन, दालचीनी, नागर-पान और इलायची ये प्रत्येक औषधि आठ आठ तोले सबको एकत्र कूट पीस कर एक एक तोलेकी गोली बनावे। इन गोलियोंको धूपमे सुखा कर चमेली आदिके सुगंधित फूलोमे बसा कर उत्तम नवीन घडेमे भरकर रख देवे । प्रतिदिन एक गोली भक्षण करे अथवा जलके साथ सेवन करे । अनुपान-दूध, मांस-रस, अनारका रस, मदिरा, आसव, शहद और शीतल जलादिक । अथवा इन गोलियोंके गुणोके अनुसार या रोगानुसार अनुपानकी कल्पना करे । इन गोलियोंके जीर्ण होनेपर हलका अन्न, दूध, जांगल जीवोके मांसका काथ और थूपका भोजन करे । सात दिनके पश्चात् फिर साधारण भोजन करे । फिर इसको चाहे भोजनसे पहले भक्षण करे और चाहे भोजनसे पीछे भक्षण करे । इससे किसी प्रकारका भय नहीं है। यह गोली सुकुमार और कामी पुरुषोको सेवन की हुई कुछ भी उपद्रव नहीं करती है। इसको एक वर्षपर्यंत नित्य सेवन करनेसे-वातरक्त रोग दूर होता है तथा बहुत वर्षोंका पुराना और गम्भीर राजयक्ष्मा, आढ्यवात, ज्वर, योनि और शुक्रदोष,

प्लीहा, ववासीर, पाण्डुरोग, हृदयरोग, संग्रहणी, ब्रध्मरोग, वमन, गुल्म, पीनस, हिचकी, खाँसी, अरुचि, श्वास, उदररोग, श्वित्रकुष्ठ, जडता, नपुंसकता, मद, क्षय, शोष, उन्माद, अपस्मार, मुखरोग, नेत्ररोग, शिरोरोग, आनाह, अतीसार, रक्तप्रदर, कामला, प्रमेह, यकृत, अर्बुद, विद्रधि, भगन्दर, रक्तपित्त, अत्यन्त कृशता, अत्यन्त स्थूलता, स्वेद, प्लीहा, देशविष, उग्रविष, अनेक प्रकारके कृत्रिम विष, शत्रु-ओकरके मंत्र, औषधि और अनेक प्रकारके किये हुए मारण मोहनादि प्रयोग तथा तांत्रिको करके करी हुई अनेक प्रकारकी वाधा, पाप और अलक्ष्मी इन सबको यह " शिवगुटिका " दूर कर देती है तथा बलकारक, वीर्यवर्द्धक, धन्य, कांति, वर्ण, यश और लक्ष्मीको बढ़ाती है । राजाके समान जय कराने-वाली और सर्व प्रकारके सुखमे स्थित करती है । इसको नित्य सेवन करनेवाला मनुष्य प्रकृति, मेधा, स्मरणशक्ति, बुद्धि, बल, दृढशरीर, पुष्टि, भोज, वर्ण, इन्द्रिय, तेज, बल और सम्पदायुक्त हो जाता है। बली और पलित रोगोसे रहित हो कर वह पुरुष दो सौ वर्षतक जीता रहता है। इसको एक वर्ष पर्यंत सेवन करनेसे और दो वर्षपर्यंत सेवन करनेसे चार सौ वर्षतक जीता रहता है, इसके प्रभावसे सर्व प्रकारके रोग दूर होते हैं, मुनियोंको भक्तिपूर्वक इस गुणरसायनका सेवन करना चाहिए । यह शिवगुटिका रसायन गणपतिके लिये पूर्वकालमे महादेवने कही है ॥ १९१-२१२ ॥

शिलाजतुशोधनविधि ।

तेषु यत्कृष्णमलघु स्निग्धं निःशर्करञ्च
यत् । गोमूत्रगन्धि यच्चापि तत्प्रधानं
शिलाजतु ॥२१३॥ शिलाजतुसमं द्रव्यं
क्वाथ्यमष्टगुणे जले । पादावशिष्टं तत्पू-
तं तस्मिन्कोष्णे विनिःक्षिपेत् ॥२१४॥
तत्समरसतां यातं संशुष्कं प्रक्षिपेद्-
से भूयः । स्वैः स्वैरेव क्वाथैर्भाव्यं
वारान्भवेत्सप्त ॥ २१५ ॥

काला, भारी, चिकना, शर्करारहित और जिसमे गोमूत्रकी गंध आती हो ऐसा शिलाजीत उत्तम

होता है । शिलाजीतको शुद्ध करनेवाली औषधि शिलाजीतके समान ले कर अठगुने जलमें पकावे । जब पकते पकते चौथाई भाग जल शेष रह जाय तब उतार कर छान लेवे, फिर उस उष्ण काथमें शिलाजीतको भावना देवे । इस प्रकार करनेसे जब वह काथमें डालनेसे काथके समान हो जाय तब फिर इसको सुखा कर काथमें डाले, ऐसे वारंवार प्रत्येक औषधिके काथमें सात सात बार भावना देवे ॥ २१३-२१५ ॥

योगसारामृत ।

शतावरी नागवला वृद्धदारकमुञ्च-
टा । पुनर्नवामृताकृष्णावाजिगन्धा-
त्रिकण्टकम् ॥ २१६ ॥ पृथग्दशपला-
न्धेषां सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् । तदर्ध-
शर्करायुक्तं चूर्णं संमर्दयेद् बुधः ॥ २१७ ॥
स्थापयेत्सुदृढे भाण्डे मध्वार्द्धाढकसं-
युतम् । घृतप्रस्थेन चालोड्य त्रिसुग-
न्धिपलेन च ॥ २१८ ॥ स्वादेद्यथेष्ट-
चेष्टान्नो यथावह्निबलं नरः । वातरक्तं
क्षयं कुष्ठं कार्श्यं पित्तास्रसम्भवम् ॥
॥ २१९ ॥ वातपित्तकफोत्थांश्च रोगान-
न्यांश्च तद्विधान् । हत्वा करोति पु-
रुषं वलीपलितवर्जितम् । योगसा-
रामृतो नाम्ना लक्ष्मीकीर्तिविव-
र्द्धनः ॥ २२० ॥

शतावर, नागवला, विधारा, उच्चटातृण, पुनर्नवा,
गिलोय, पीपल, असगंध और गोखरू ये प्रत्येक
औषधि दश दश पल ले कर वारीक चूर्ण कर लेवे
और सब चूर्णसे आधी उत्तम चीनी लेवे, गहद
आधा आढक और धी एक प्रस्थ लेवे तथा दालचीनी,
इलायची और तेजपातका चूर्ण चार तोले लेवे,
सबको एकत्र मिलाकर अच्छे प्रकारसे चला कर
एकमएक कर लेवे। इस पर इच्छानुसार आहार विहार
करे । इसको अधिके बलानुसार सेवन करे । यह

योगसार-वातरक्त, क्षय, कोठ, कृशता, पित्तरक्त,
वातपित्त और कफजनित रोग और अन्यान्य अनेक
प्रकारके रोगोंको दूर करता है । यह योगसारामृत-
वली और पलितरोगको दूर करता है । लक्ष्मी और
कीर्तिको बढ़ानेवाला है ॥ २१६ ॥ २१७ ॥ २१८ ॥
॥ २१९ ॥ २२० ॥

पथ्य ।

व्यायामं मैथुनं कौपमुष्णांबुलवणं
रसम् । दिवास्वप्नमाभिष्यन्दि गुरु-
धान्यं विवर्जयेत् ॥ २२१ ॥

इसपर व्यायाम (दंड कसरत), मैथुन, क्रोध,
गरम जल, लवणरस, दिनमें सोना, अभिष्य-
न्दिपदार्थ और भारी अन्न ये सब त्याग देवे ॥ २२१ ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां
वातरक्तनिदानाचिकित्सा-
धिकार समाप्त ॥ २५ ॥

अथोरुस्तम्भाधिकारः ।

— ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ —

शीतोष्णद्रवसंशुष्कगुरुस्त्रिगैर्निषे-
वितैः । जीर्णाजीर्णै तथाऽऽयाससं-
क्षोभस्वप्नजागरैः ॥ १ ॥ सश्लेष्ममेदः
पवनः साममत्यर्थसाञ्चितम् । अभिभू-
येतरं दोषमूरु चेत्प्रतिपद्यते ॥ २ ॥
सक्थ्यस्थीनि प्रपूर्यान्तः श्लेष्मणा
स्तिमितेन च । तदा स्तभ्राति तेनोरु
स्तब्धौ शीतावचेतनौ ॥ ३ ॥ परकी-
याविव गुरु स्यातामतिभृशव्यर्थौ ।
ध्यानाङ्गमर्दस्तैमित्यतन्द्राच्छर्षरु-
चिज्वरैः ॥ ४ ॥ संयुक्तौ पादसदन-
कृच्छ्रोद्धरणसुप्तिभिः । तमूरुस्तम्भ-
मित्याहुराढ्यवातमथापरे ॥ ५ ॥

जीर्ण अथवा अजीर्ण अवस्थामे शीतल, गरम, पतले, सूखे, भारी और चिकने पदार्थोंके अत्यन्त सेवन करनेसे, अधिक व्यायाम करने या शरीरको संचालन करनेसे, दिनमें सोने और रातमें जागनेसे, परस्पर विरुद्ध आहार और विहारोंके द्वारा कफ और भेदसंयुक्त वायु शरीरमें स्थित अपक संचित आमदोष पित्तको आच्छादित करके दोनो ऊरुओंमें प्राप्त होकर तथा आर्द्रकफसे उनके भीतरकी हड्डियोंको परिपूर्ण कर देती है तब वायु स्तब्ध अर्थात् गतिरहित हो जाती है, इससे दोनो ऊरु अर्थात् घुटने स्तब्ध, शीतल, चेतनारहित, ऐसा मालूम हो कि जैसे दूसरेके होते हैं, भारी और अत्यन्त पीडा-युक्त होते हैं तथा रोगी उठनेको और चलनेको असमर्थ हो जाता है ऊरुस्तम्भरोगमें मनुष्य निश्चेष्ट हो जाता है और शरीर गीले कपड़ेसे ढके हुएके समान मालूम होता है । तन्द्रा, वमन, अरुचि, शरीरमें पीडा, ज्वर और दोनो पांवाँका सो जाना, तथा बड़े कष्टसे उठा कर धरा देना ये सब होते हैं उसको ऊरुस्तम्भ कहते हैं और कोई २ वैद्य आढ्य-वात कहते हैं ॥ १-५ ॥

पूर्वरूप ।

प्राग्रूपं तस्य निद्रार्तिध्यानं स्तिमितता ज्वरः । लोमहर्षोऽरुचिश्छर्दि-
जघोर्वोः सदनं तथा ॥ ६ ॥

ऊरुस्तम्भके पूर्वरूपमें अधिक निद्राका आना, ध्यानका लग जाना, स्तैमित्य (शरीर गीले कपड़ेसे आच्छादित होनेके समान जान पडना), ज्वर, रोमाचोका होना, अरुचि, वमन, जवा और ऊरु-ओका रह जाना ये सब लक्षण होते हैं ॥ ६ ॥

ऊरुस्तम्भके लक्षण ।

वातशंकीभिरज्ञानात्तस्य स्यात्स्नेह-
नात्पुनः । पादयोः सदनं सुप्तिः कृ-
च्छ्रादुद्धरणं तथा ॥ ७ ॥ जङ्घोरुग्रा-
निरत्यर्थं शश्वद्वा दाहवेदने । पादं
च व्यथते न्यस्तं शीतस्पर्शं न वेत्ति
सः ॥ ८ ॥ संस्थाने पीडने गत्यां
चालने वाप्यनीश्वरः । अन्यनेयो हि
संभ्रमावूरु पादौ च मन्यते ॥ ९ ॥

वैद्य, वातरोगके भ्रमसे ऊरुस्तम्भमें यदि स्नेह क्रिया (तैलादिका मर्दन) प्रयोग करे तो उससे

रोग अधिक बढ जाता है, पांवाँमें गिथिलता और सुत्री हो जावे, अत्यंत कष्टसे पांव उठाया और धरा जावे, जंघा और ऊरुओंमें ग्लानि हो, सदैव जलन और वेदना हो, पैरोंमें व्यथा हो, शीतल द्रव्योंका स्पर्श मालूम न हो, पांवाँको न हिला सके और न उठा सके, न धर सके, पांव और घुटने टूटेसे या दूसरेकेसे जान पड़े, ये सब ऊरुस्तम्भके लक्षण हैं ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥

असाध्य लक्षण ।

यदा दाहार्तितोदात्तो वेपनः पुरुषो
भवेत् । ऊरुस्तम्भस्तदा हन्यात्सा-
धयेदन्यथा नवम् ॥ १० ॥

ऊरुस्तम्भवाले रोगीके यदि दाह करनेके समान पीडा या सुई चुभने सरीखी पीडा और कम्प हो तो वह रोगी नष्ट हो जाता है और जो उपरोक्त उपद्रव न हो और थोड़े दिनोंका उत्पन्न हुआ हो तो साध्य है ॥ १० ॥

ऊरुस्तम्भकी चिकित्सा ।

स्नेहासृक्स्त्रावमनवस्तिक्कर्मविरे-
चनम् । वर्जयेदाढ्यवाते तु यतस्तै-
स्तस्य कोपनम् ॥ ११ ॥ तस्मादत्र
सदा कार्यं स्वेदलघनरूक्षणम् । आ-
ममेदः कफाधिक्यान्मारुतं नयतां
शमम् ॥ १२ ॥ यत्स्यात्कफप्रशमनं
न च मारुतकोपनम् । तत्सर्वं सर्वदा
कार्यमूरुस्तम्भस्य भेषजम् ॥ १३ ॥
सर्वो रूक्षक्रमः कार्यस्तत्रादौ कफ-
नाशनः । पश्चाद्वातविनाशाय कृ-
त्स्त्रा कार्या यथा क्रियाः ॥ १४ ॥
भोज्याः पुराणाः श्यामाककोद्रवो-
दालशालयः । जाङ्गलैरघृतैर्मांसैः
शाकैश्चालवणैर्हितैः ॥ १५ ॥ वाय-
सीवास्तुकारिष्टसुनिषण्णकमूलकैः ।
शाकैरलवणैर्युक्तं जीर्णशाल्योदनं
भिषक् ॥ १६ ॥ रूक्षणाद्वातकोपश्चे-
न्निद्रानाशार्तिसूचकः । स्नेहस्वेदक्र-
मस्तत्र कार्यो वातामयापहः ॥ १७ ॥

प्रतारयेत्प्रतिस्त्रोतो नदीं शीतजलां
शिवाम् । सरश्च विमलं शीतं स्थिर-
तोयं पुनः पुनः ॥ १८ ॥ तथा वि-
शुष्के च कफे ब्रजेच्छान्तिमुरुग्रहः ।
शरीरबलमग्निश्च कार्येषा रक्षिता
क्रिया ॥ १९ ॥

ऊरुस्तम्भरोगमें स्नेहन, रुधिरका निकलवाना
(फस्त खुलवाना आदि), वमन कराना, वस्तिकर्म
(पिचकारी लगाना) और विरेचन (जुलाब), इन
सबको त्याग देवे क्योंकि इन स्नेहादि कर्मोंको सेवन
करनेसे ऊरुस्तम्भका उलटा प्रकोप होता है इसकारण
ऊरुस्तम्भमें सदैव स्वेदन, लंघन तथा रूक्षक्रिया करनी
चाहिए । इस रोगमें वायुका बचाव करके आम, भेद
और कफ अधिक होनेसे जो जो औषधि कफको
शमन करनेवाली और वायुको कुपित नहीं करनेवाली
हैं उन सबको सदैव इसमें सेवन करे । इस ऊरुस्त-
म्भरोगमें समस्त रूक्ष क्रिया करनी चाहिए । उसमें
मौ प्रथम कफको नष्ट करनेवाली क्रिया प्रयोग करनी
चाहिये और फिर उसके पश्चात् वातनाशक क्रिया
करनी चाहिए । ऊरुस्तम्भरोगमें पुराने समा, कोदों,
वनकोदों और शालिचावल इनको घृतरहित जांगल
जीवोंके मासके साथ और लवणरहित हितकारक
शाकोंके साथ भोजन करे । मकोय, बथुआ, नीमके
पत्ते, शिरीशारी और मूली इनका विना नमकका
शाक बनाकर पुराने शालिचावलोके भातके साथ
खाय । जो रूक्ष क्रिया करनेसे पीडायुक्त वायुका
प्रकोप और निद्राका नाश हो तो वायुकी वेदनाको
हरनेवाले स्नेहन तथा स्वेदन कर्म करे । ऊरुस्तम्भ-
रोगीको शीतल जलवाली सुन्दर नदीमें उसके प्रवाह-
के साथ तैरावे और निर्मल तथा शीतल एवं स्थिर
जलवाले सरोवरमें वारंवार तैरावे । रोगीके शरीरके
बलका और अग्निका बचाव करके जिस प्रकार कफ
सूख कर ऊरुस्तम्भ शांत हो, उसी प्रकार चिकित्सा
करनी चाहिए ॥ ११-१९ ॥

सक्षारमूत्रस्वेदांश्च रूक्षानुत्सादनानि
च । कुय्याद्वाहे च मूत्राट्यैः करञ्ज-
फलसर्षपैः ॥ २० ॥ मूलं वाथाश्वग-

न्धाया मूलैर्कस्य वा भिषक् । पिचु-
मन्दस्य वा मूलैरथवा देवदारुणा २१

ऊरुस्तम्भरोगमें क्षार तथा मूत्र संयुक्त पदार्थोंसे
स्वेदन करे । और रूक्ष पदार्थोंसे सांथले और घुट-
नोको मले । दाह हो तो मूत्रादिकसे अथवा करंजुवके
फलोंसे संयुक्त सरसोसे अथवा असगन्धके चूर्णसे
अथवा आककी जड़के चूर्णसे अथवा नीमकी जड़के
चूर्णसे या देवदारुके चूर्णसे सांथलोंको मले ॥ २० ॥
॥ २१ ॥

क्षौद्रसर्षपवल्मीकमृत्तिकासंयुतैर्भि-
षक् । गाढमुत्सादनं कुय्याद्दूरुस्तम्भे
सवेदने ॥ २२ ॥

ऊरुस्तम्भमें अत्यन्त पीडा हो तो शहद, सरसों
और बॉबीकी मिट्टी, इन सबको एकत्र पीस कर
सांथलोको मले ॥ २२ ॥

दन्ती द्रवन्ती सुरसा सर्षपैश्चापि बु-
द्धिमान् । तर्कारीस्वरसं शिशुवचा-
वत्सकनिम्बकैः ॥ पत्रमूलफलैस्तो-
यैः शृतमुष्णश्च सेवनम् ॥ २३ ॥

दन्ती, द्रवन्ती (छोटी दन्ती), तुलसी, सरसो, जी-
वंती, सहिजना, बच, कुडा और नीम इनके पत्ते,
जड़ और फलोंका स्वरस काथ बना कर गरम गरम
सेवन करे ॥ २३ ॥

भह्लातकामृताशुण्ठी दारुपथ्यापुन-
र्नवा । पञ्चमूलीद्वयोन्मिश्रा ऊरुस्त-
म्भनिवर्हणा ॥ २४ ॥

भिलावे, गिलोय, सोंठ, देवदारु, हरड, पुनर्नवा
और दशमूल, इन सब औषधियोंका काथ बनाकर
अथवा चूर्ण बनाकर सेवन करनेसे ऊरुस्तम्भरोग दूर
होता है ॥ २४ ॥

पिप्पली पिप्पलीमूलं भह्लातकफ-
लानि च । कल्कं मधुयुतं पीत्वा ऊरु-
स्तम्भाद्विमुच्यते ॥ २५ ॥

पीपल, पीपलामूल और भिलावे इनका कल्क बना-
कर तथा शहद मिलाकर सेवन करनेसे ऊरुस्तम्भ-
रोग दूर होता है ॥ २५ ॥

रास्नादिक्वाथ ।

रास्नाश्यामाकपथ्या मरिचमिसि-
शिवा वेल्लकश्वाश्वगन्धा यासं छि-
न्नाजमोदासुमुखमतिविषा वृद्धदारु-
र्बृहत्स्यौ । शुण्ठी तिक्ता यवानी सह-
चरचविकैरण्डदाव्याजकर्णा ऊरु-
स्तम्भामवातं जठररुजकटीपृष्ठशू-
लान्त्रवृद्धिम् ॥ वातामश्वासशोथा-
न्कफपवनरुजादण्डकांश्वाशु हन्या
त् ॥ २६ ॥

रास्ना, सारिवा, इरड, काली मिरच, सौफ, हलदी, वायविडंग, असगध, जवासा, गिलोय, अजमोद, वनतुलसी, अतीस, विधारा, कटेरी, बडी कटेरी, सोठ, कुटकी, अजवायन, पियावारा, चव्य, अंडकी जड, दारुहलदी और साल इनका क्वाथ बना कर सेवन करनेसे ऊरुस्तम्भ, आमवात, उदररोग, कटिशूल, पृष्ठशूल, अत्रवृद्धि, अपक्ववात, श्वास, सूजन, वात-पित्त, कफजनित रोग और दडकाक्षेपरोग नष्ट होता है ॥ २६ ॥

ग्रन्थिकारुष्ककृष्णानां क्वाथं क्षौद्रा-
न्वितं पिबेत् । चव्ययासाग्निदारूणां
कल्कं वा मधुसंयुतम् ॥ २७ ॥ त्रिफ-
लाचव्यकटुकं ग्रन्थिकं मधुना लि-
हन् । ऊरुस्तम्भविनाशाय पुरं भूत्रे-
णवा पिबेत् ॥ २८ ॥

पीपलामूल मिलावे और पीपल इनका क्वाथ बना-
कर शहद डालकर सेवन करनेसे ऊरुस्तम्भ रोग दूर
होता है । चव्य, जवासा, चीता और देवदारु इनका
कल्क बनाकर शहद मिलाकर सेवन करनेसे अथवा
त्रिफला, चव्य, कुटकी और पीपलामूल इनका चूर्ण
बनाकर शहदमे मिलाकर सेवन करनेसे ऊरुस्तम्भ-
रोग नष्ट होता है । अथवा ऊरुस्तम्भरोगको दूर
करनेके लिये गूगलको गोमूत्रके साथ सेवन
करे ॥ २७ ॥ २८ ॥

लिह्याद्वा त्रिफलाचूर्णं क्षौद्रेण कटु-
कायुतम् । सुखाम्बुना पिबेद्वापि चूर्णं
षड्धरणं नरः ॥ २९ ॥

त्रिफलेके चूर्णको और कुटकीके चूर्णको गहद
मिलाकर चाटनेसे ऊरुस्तम्भरोग नष्ट होता है । अथवा
षड्धरण चूर्णको मंदोष्ण जलके साथ पान करनेसे
ऊरुस्तम्भरोग शमन होता है ॥ २९ ॥

पिप्पलीवर्धमानं वा माक्षिकेण गुडेन
वा । ऊरुस्तम्भे प्रशंसन्ति गण्डी-
रारिष्टमेव वा ॥ ३० ॥

वर्द्धमानपीपलको गहद अथवा गुडके साथ सेवन
करनेसे ऊरुस्तम्भरोग दूर होता है । वनसूरणका
अरिष्ट बनाकर सेवन करनेसे ऊरुस्तम्भरोग शमन
होता है ॥ ३० ॥

शिलाजतुं गुग्गुलुं वा पिप्पलीमथ
नागरम् । ऊरुस्तम्भे पिबेन्मृत्रैर्दश-
मूलीरसेन वा ॥ ३१ ॥ त्रिफलापि-
प्पली मुस्तं चव्यं कटुकरोहिणी ।
लिह्याद्वा मधुना चूर्णमूरुस्तम्भा-
र्दितौ नरः ॥ ३२ ॥

ऊरुस्तम्भरोगमे शिलाजीत और गूगलको अथवा
पीपल और सोठको गोमूत्र या दशमूलके क्वाथके द्वारा
पान करनेसे ऊरुस्तम्भरोग दूर होता है । त्रिफला,
पीपल, नागरमोथा, चव्य और कुटकी, इनका चूर्ण
बनाकर शहद मिलाकर सेवन करनेसे ऊरुस्तम्भरोग
नष्ट होता है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

घृतं सौरेश्वरं दद्यादूरुस्तम्भे कफो-
त्तरे । दद्याच्छुण्ठीघृतं वापि वैश्वान-
रमथापि वा ॥ सैन्धवाद्यं हितं तैल-
ममृताद्योऽपि गुग्गुलुः ॥ ३३ ॥

ऊरुस्तम्भरोगमे जो कफकी अधिकता हो तो
सौरेश्वरघृत अथवा शुंठीघृत या वैश्वानरचूर्ण तथा
सैन्धवादितैल अथवा अमृतादि गूगलको देना
चाहिए ॥ ३३ ॥

कुष्ठादितैल ।

कुष्ठं श्रीविष्टकोदीच्यं सरलं दारु के-
शरम् । अजगन्धाश्वगन्धे च तैलं तैः
सार्षपं पचेत् । सक्षौद्रं मात्रया तद्वदू-
रुस्तम्भार्दितः पिबेत् ॥ ३४ ॥

कूठ, सरलका गोंद, सुगववाला, धूपसरल, देव-
दारु, नागकेशर, वनतुलसी और असगंध इनके
कल्कके द्वारा सरसोंके तेलको पकाकर गहद मिला-
कर यथोचित मात्रासे सेवन करनेसे अथवा पान
करनेसे ऊरुस्तम्भरोग दूर होता है ॥ ३४ ॥

अष्टकट्वरतैल ।

पलाभ्यां पिप्पलीमूलान्नागरादष्टक-
ट्वरः । तैलप्रस्थं समं दध्ना गृध्रस्यू-
रुग्रहापहः ॥ ३५ ॥ सस्त्रेहं दधिसंभूतं
तक्रं कट्वर उच्यते । अष्टकट्वरतैले-
ऽत्र तैलं सार्षपमिष्यते । पिप्पलीमू-
लशुण्ठयोश्च प्रत्येकं द्विपलं कृतम् ३६

पीपलामूल ८ तोले, सोठ ८ तोले, मलाईयुक्त
दहीसे बनाई हुई खट्टी छाछ ६४ तांल, दही ६४
तोले और सरसोंका तेल ६४ तोले, इन सबको एकत्र
मिलाकर विधिपूर्वक तेलको सिद्ध करे । इसको अष्ट-
कट्वर तैल कहते हैं । इस तैलेका उपयोग करनेसे
ऊरुस्तम्भरोग दूर होता है ॥ ३४ ॥ ३६ ॥

इति श्रीवंगसेने भापाटीकाया ऊरुस्त-
म्भाधिकार समाप्त ।

अथामवातरोगाधिकार ।

विरुद्धाहारचेष्टस्य मन्दाग्नेनिश्चल-
स्य च । स्निग्धं भुक्तवतो ह्यन्नं व्या-
यामश्चाथ कुर्वतः ॥ १ ॥ वायुना प्रे-
रितो ह्यामः श्लेष्मस्थानं प्रधावति ।
तेनात्यर्थं विदग्धोऽसौ धमनीः प्रति-
पद्यते ॥ २ ॥ वातपित्तकफैर्भूयो-दूषि-
तो ह्यन्नजो रसः । स्रोतांस्यभिष्य-
न्दयति नानावर्णोऽतिपिच्छिलः ॥ ३ ॥
जनयत्यग्निदौर्बल्यं हृदयस्य च गौर-
वम् । व्याधीनामाश्रयो ह्येष आम-
संज्ञोऽतिदारुणः ॥ ४ ॥

विरुद्ध आहार (प्रकृतिविरुद्ध, समयविरुद्ध, संयो-
गविरुद्ध) और विरुद्ध चेष्टा करनेवाले तथा खाली
बैठे रहनेवाले और स्निग्ध अन्न भक्षण करके कसरत
करनेवाले मनुष्योंके, मंदाग्निके कारण वायुसे प्रेरित
हुई आम कफस्थान (आमाशय), वक्षस्थल, कंठ,
मस्तक और संधियोंमें प्राप्त होती है । आम जो पित्तके
स्थानोंसे जाय तो पक जाती है । किन्तु ऊपर कहे
अनुसार कफके स्थानोंमें प्राप्त होनेके कारण अत्यन्त
अपक रहकर यह आम धमनियोंके मार्गसे चलती
है । इस प्रकार संचलन करती हुई यह आम फिर
वातसे, पित्तसे तथा कफसे अत्यन्त दूषित होकर
स्रोतोंमें रहनेवाले रसको वहने वाली शिराओंको रोक
कर स्रोतोंको भारी कर देती है । वातादि दोषोंसे
अनेक प्रकारके वर्णवाली, अत्यंत चिकनी, पिच्छिल
यह आम अग्निको निर्वल कर देती है और हृदयमें
भारीपनको उत्पन्न करती है । यह महादारुण आम
व्याधियोंका आश्रयरूप है ॥ १-४ ॥

आमवातका पूर्वरूप ।

अजीर्णाद्यो रसो जातः संचितः सं-
क्रमेण वै । आमसंज्ञां स लभते शि-
रोगात्ररुजाकरः ॥ ५ ॥

भोजन किये हुए अन्नके नहीं पचनेसे जो अन्नका
अपक रस उत्पन्न होता है वह क्रम क्रमसे जब एक-
त्रित होजाता है तब उसको आम कहते हैं । वह
आम सम्पूर्ण शरीर तथा मस्तकमें पीडा करता
है ॥ ५ ॥

आमवातके सामान्य लक्षण ।

युगपत्कुपितावेतौ त्रिकसन्धिप्रवेश-
कौ । स्तब्धश्च कुरुते गात्रमामवातः
स उच्यते ॥ ६ ॥

जब आम और वायु दोनों एक समय कुपित
होकर कोठे तथा कमर और गर्दनकी पीछेकी संधि-
योंमें प्रविष्ट होकर शरीरको जकड़ देते हैं तब उसको
आमवात कहते हैं ॥ ६ ॥

विशेषलक्षण ।

अङ्गमर्दोऽरुचिस्तृणा आलस्यं गौरवं ज्वरः । अपाकः शून्यताङ्गानामामवातस्य लक्षणम् ॥ ७ ॥

अंगोंका दूटना, अरुचि, तृपा, आलस्य, भारीपन, ज्वर, अन्नका नहीं पचना और अंगोंमें शून्यता ये आमवातके विशेष लक्षण हैं ॥ ७ ॥

अत्यन्त बढेहुए आमवातके लक्षण । सकष्टः सर्वरोगाणां यदा प्रकुपितो भवेत् । हस्तपादशिरोगुल्फत्रिकजानूरुसन्धिषु ॥ ८ ॥ करोति सरुजं शोथं यत्र दोषः प्रपद्यते । स दोषो रुजतेऽत्यर्थं व्याविद्ध इव वृश्चिकैः ॥ ९ ॥ जनयेत्सोऽग्निर्दौर्बल्यं प्रसेकारुचिगौरवम् । उत्साहहानिवैरस्यं दाहश्च बहुमूत्रताम् ॥ १० ॥ कुक्षौ कठिनतां शूलं तथा निद्राविपर्ययम् । तृट्छर्दिभ्रममूर्च्छाश्च हृद्ग्रहं विधिबन्धनम् ॥ १२ ॥ जाड्यान्त्रकूजमानाहं कष्टांश्चान्यानुपद्रवान् ॥ १२ ॥

सम्पूर्णरोगोंमें अत्यन्त कष्टजनक जब यह आमवात अधिक कुपित होता है तब हाथ, पाँव, मस्तक, गुल्फ, त्रिक, घुटने, सांथल और घुटनोके जोड़, इनमें पीडा युक्त सूजन उत्पन्न करता है । दुष्ट हुई यह आम जिस प्रदेशमें जाती है उसी शरीरके प्रदेशमें वील्लूके काटे हुएके समान घोर पीडा करती है। आमवातसे जठराग्नि निर्बल होजाती है, मुखमें थूक आने लगता है, अरुचि होती है, शरीरमें भारीपन, उत्साहका नाश, विरसता, दाह, मूत्रका बाहुल्य, कुक्षिस्थानोंमें कठिनता, शूल, निद्राका नाश, तृपा, भ्रम, वमन, मूर्च्छा, हृदयमें जडता, मलका अवरोध, जडता, आँतोंका कूजना, अफारा और दूसरे कलायखंजादि दुःखदायक उपद्रव होते हैं ॥ ८ ॥ ११ ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥

पित्तात्सदाहरागश्च सशूलं पवनानुगम् । स्तिमितं गुरुकण्डूकं कफजुष्टं तमादिशेत ॥ १३ ॥

पित्ताधिक आमवातमें दाह और लाली होती है। वाताधिक आमवातरोगमें शूल होता है। कफाधिक आमवातरोगमें जडता, भारीपन और खुजली अधिक होती है ॥ १३ ॥

साध्यासाध्यविचार ।

एकदोषानुगः साध्यो द्विदोषो याप्य उच्यते । सर्वदेहचरः शोथः सकृच्चः सान्निपातिकः ॥ १४ ॥

एक दोषजनित आमवात साध्य, दो दोष जनित आमवात याप्य और त्रिदोषजनित तथा सम्पूर्ण शरीरमें सूजनयुक्त आमवात कष्टसाध्य जानना ॥ १४ ॥

आमवातकी चिकित्सा ।

लघनं स्वेदनं तिक्तं दीपनानि कटूनि च । विरेचनं स्नेहनश्च वस्तथश्चाममारुते ॥ १५ ॥

आमवातरोगमें लघन, स्वेदन, कडवे, दीपन और चरपरे पदार्थ, विरेचनकर्म, स्नेहनकर्म और वस्ति-कर्म ये सब उपचार करने चाहिये ॥ १५ ॥

रूक्षः स्वेदो विधातव्यो वालुकापुटकैस्तथा । उपनाहाश्च कर्त्तव्यास्तेऽपि स्नेहविवर्जिताः ॥ १६ ॥

आमवातरोगमें रेतकी पोटली बनाकर उसका रूक्ष सेक करे और स्नेहरहित उपनाह स्वेद देवे ॥ १६ ॥

आमवाताभिभूताय पीडिताय पिपासया । पञ्चकोलेन संसिद्धं पानीयं हितमुच्यते ॥ १७ ॥

आमवातसे पीडित मनुष्यको तृपा लगे तो पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता और सोठ इनके द्वारा जलको पकाकर देवे ॥ १७ ॥

शुष्कमूलकयूषस्तु यूषं वा पाश्वमौ-
लिकम् । रसकं काञ्जिकं वापि
शुण्ठिचूर्णावचूर्णितम् ॥ १८ ॥

आमवातरोगीको सूखी मूलीका यूप अथवा पंच-
मूलका यूप किवा काँजीमे सोठका चूर्ण डाल कर
देवे ॥ १८ ॥

सौवीरं स्वित्तवार्त्तिकं तथा तिक्तफ-
लानि च ॥ १९ ॥

सौवीरनामक काँजीमें बैंगनको उवाल कर अथवा
कहवे फलोंको उवाल कर सेवन करे ॥ १९ ॥

वास्तूकशाकं सारिष्टं शाकं पौनर्नवं
हितम् । पटोलं गोक्षुरश्चैव वरुणं
कारवेल्लकम् ॥ २० ॥ यवान्नं कोर-
दूषान्नं पुराणं शालिषष्टिकम् । लाव-
कानां तथा मांसं हितं तक्रेण संस्कृ-
तम् ॥ २१ ॥ हितं च यूषं कौलत्थं
कालायश्चणकस्य च । रुच्यं दद्या-
द्यथासात्म्यमामवातहितं च यत् २२ ॥

वथुएका शाक, नीमके पत्तोका शाक, पुनर्नवेका
शाक, परवलका शाक, गोखरुके पत्तोका शाक, वर-
नेके पत्तोका शाक, करले, जौ, कोदो, पुराने शालि
और साठीधान, तक्रमे सिद्ध किया हुआ लवेका मांस,
कुलथीका यूप, मटरका यूप और चनेका यूप ये सब
आमवातरोगमे हितकारी हैं । आमवातरोगीको अपनी
प्रकृतिके अनुसार जो रुचे और आमवातरोगमे हित-
कारी हो वही उसको देना चाहिए ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥

शतपुष्पावचाविश्वश्वंदष्ट्रावरुणत्व-
चः । पुनर्नवासदेवाह्णशटीमुण्डि-
तिकाः समाः ॥ २३ ॥ प्रसारणी च
तर्कारी फलश्च मदनस्य च । शुक्त-
काञ्जिकपिष्टाश्च सुखोष्णा लेपने
हिताः ॥ २४ ॥

सौंफ, वच, सोंठ, गोखरु, वरनेकी छाल, पुन-
र्नवा, देवदारु, कचूर, गोखरुमुण्डी, प्रसारणी डोडीका
शाक और मैनफल इन सबको सिरकेकी काँजीमें

पीसकर मंदोष्ण करके लेपन करनेसे आमवातरोग
शान्त होता है ॥ २३ ॥ २४ ॥

अहिंस्त्राकेमुकामूलं शिशुवल्मीकमृ-
त्तिका । मूत्रपिष्टैश्च कर्तव्यमुपनाह-
प्रलेपनम् ॥ २५ ॥

अहिंस्त्रा (हींस), केमुककी जड़, सहिजनेकी
जड़ और वॉवीकी मिट्टी, इनको गोमूत्रमें पीसकर
पीडाके स्थानमें लेप करनेसे अथवा वॉधनेसे आमवा-
तरोग शान्त होता है ॥ २५ ॥

चित्रकं कटुका पाठा कलिङ्गातिवि-
षामृताः । देवदारुवचामुस्ता नाग-
रातिविषाभयाः ॥ पिबेदुष्णाम्बुना
नित्यमामवातस्य भेषजम् ॥ २६ ॥

चीता, कुटकी, पाठ, इन्द्रजौ, अतीस, गिलोय,
देवदारु, वच, नागरमोथा, सोंठ, अतीस और हरड़
इन सबको एकत्र पीसकर गरमजलेके साथ नित्य
पीनेसे आमवातरोग शान्त होता है ॥ २६ ॥

शटीशुण्ठचभया चोग्रा देवाह्वाति-
विषामृताः । कषायमामवातस्य पा-
चनं रूक्षभोजनम् ॥ २७ ॥

कचूर, सोंठ, हरड़, वच, देवदारु, अतीस और
गिलोय इनका काथ बनाकर पान करे और रूक्ष
भोजन करे, इससे आमवातरोग शान्त होता है २७ ॥

रास्त्रां गुडुचमैरण्डं देवदारुमहौष-
धम् । पिबेत्सर्वाङ्गिके वाते सामे
सन्ध्यस्थिमज्जगे ॥ २८ ॥

रायसन, गिलोय, अण्डकी जड़, देवदारु और
सोंठ इनका काथ बनाकर सर्वाङ्गवात, आमवात,
संधिगत वात, आस्थिगत और मज्जागतवातमे पीना
चाहिए ॥ २८ ॥

पिप्पली पिप्पलीमूलं चव्यचित्रक-
नागरैः । कथितं वारि तत्पेयमाम-
वातनिवर्हणम् ॥ २९ ॥

पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता और सोंठ
इनका काथ बनाकर पीनेसे आमवातरोग दूर होता
है ॥ २९ ॥

शटीविश्वौषधीकल्कं वर्षाभूक्काथसं-
युतम् । सप्तरात्रं पिवेज्जन्तुरामवात-
विनाशनम् ॥ ३० ॥

कचूर और सोठ इनका कल्क बनाकर पुनर्नवेके
काथमे मिलाकर सात दिनतक पान करनेसे आम-
वात रोग जमन होता है ॥ ३० ॥

रास्त्रामृतारग्वधदेवदारुत्रिकण्टकैर-
ण्डपुनर्नवानाम् । काथं पिवेन्नागर-
चूर्णमिश्रं जंघोरुपार्थत्रिकपृष्ठशूले ३१

रायसन, गिलोय, अमलतास, देवदारु, गोखरु,
अंडकी जड और पुनर्नवा इनका काथ बनाकर
सोठका चूर्ण डालकर पान करनेसे जंघा, ऊरु, पार्श्व-
त्रिक और पृष्ठगतशूल नष्ट होता है ॥ ३१ ॥

आमवाते कणाद्युक्तं दशमूलीजलं
पिवेत् । खादेद्वाप्यभया विश्वं गुडू-
चीं नागरेण वा ॥ ३२ ॥

आमवातरोगमे दशमूलके काथमे पीपलका चूर्ण
डाल कर पान करे, अथवा हरड और सोठको एकत्र
मिलाकर भक्षण करे या गिलोय और सोठको मिला-
कर खाय ॥ ३२ ॥

चित्रकेन्द्रयवापाठाः कटुक्लातिविषा-
भयाः । आमाशयोत्थवातघ्नं चूर्णं
पेयं तथाऽम्बुना ॥ ३३ ॥

चीता, इन्द्रजी, पाठ. कुटकी, अतीस और हरड
इनका चूर्ण बनाकर सुहाते २ गरम जलके साथ
भक्षण करे तो आमवातरोग शान्त होता है ॥ ३३ ॥

पुनर्नवासृताशुण्ठीशताह्वावृद्धदारु-
कम् । शटीसुण्डतिकाचूर्णमारजा-
लेन पायेयत् ॥ आमवातं निहन्त्या-
शु गृध्रसीसुद्धतामपि ॥ ३४ ॥

पुनर्नवा, गिलोय, सोठ, सौफ, विवारा, कचूर
और गोरगमुटी इन सबका एकत्र चूर्ण बनाकर
कांजीके साथ पान करनेसे आमवात और उद्धत
गु-रोगोदर दूर होता है ॥ ३४ ॥

कर्षं नागरचूर्णस्य काञ्चिकेन पिवे-
त्सदा । आमवातप्रशमनं कफवात-
हरं परम् ॥ ३५ ॥

एक तोला सोठके चूर्णको कांजीके साथ सदैव
पान करनेसे आमवात और कफवात शान्त होता
है ॥ ३५ ॥

पञ्चमूलकचूर्णन्तु पिवेदुष्णेन वारि-
णा । मन्दाग्निशूलगुल्मश्च काफारोच-
कनाशनम् ॥ ३६ ॥

पञ्चमूलके चूर्णको गरमजलके साथ पीनेसे
मन्दाग्नि, शूल, गुल्म, कफ और अरुचि नष्ट होती
है ॥ ३६ ॥

आमवातगजेन्द्रस्य शरीरवनचारि-
णः । एक एव निहन्त्याशु ह्येण्डस्त्रे-
हकेसरी ॥ ३७ ॥

शरीररूपी वनमे विचरण करनेवाले आमवातरूपी
गजेन्द्रको एक अण्डीका तेलरूपी सिंह ही नष्ट कर
देता है ॥ ३७ ॥

एण्डतैलयुक्तां हरीनकीं भक्षयेन्नरो
विधिवत् । आमानिलातिर्युक्तो गृ-
ध्रसीवृद्धयर्दितो नियतम् ॥ ३८ ॥

नित्य अण्डीके तैलके, साथ हरडको विधिपूर्वक
सेवन करनेसे आमवातकी पीडा, गृध्रसी, वृद्धि और
अर्दितरोग दूर होता है ॥ ३८ ॥

आरग्वधस्य पत्राणि भृष्टानि कटुतै-
लतः । आमग्नानि नरः कुय्यात्सूप-
भक्तावृतानि च ॥ ३९ ॥

अमलतासके पत्तोंको कडवे तेलमे भूनकर भक्षण
करे और ऊपरसे दाल भात खाय तो आमवातकी
पीडा शान्त होती है ॥ ३९ ॥

काटिग्रहके लक्षण ।

वायुः कटयाश्रितः शुद्धः सामो वा
जनयेद्गुजम् । काटिग्रहः स एवोक्तः
पद्भुः सक्थिद्वयाश्रितः ॥ ४० ॥

कटिमे रहनेवाली शुद्ध वायु अथवा आमसहित वायु
व्यथाको उत्पन्न करती है, इसको काटिग्रह कहते हैं जो

इसमें दोनों सांथले रह जायें तो इसको पंगुरोग कहते हैं ॥ ४० ॥

कटिग्रहकी चिकित्सा ।

शुण्ठीगोधुरकः काथः प्रातः प्रात-
निषेवितः । सामे वाते कटीशूले पा-
चनो रुक्प्रणाशनः ॥ ४१ ॥

सोंठ और गोखरू इनका काथ बनाकर प्रातिदिन प्रातःकाल सेवन करनेसे आमवात, कटिशूल और सर्व प्रकारकी वातकी पीडा शमन होती है ॥ ४१ ॥

श्वक्षारसमायुक्तो मूत्रकृच्छ्रविनाश-
नः ॥ ४२ ॥

ऊपरके काथमें जवाखार डाल कर पान करनेसे मूत्रकृच्छ्ररोग दूर होता है ॥ ४२ ॥

दशमूलीकषायेण पिबेद्वा नागरा-
म्भसा । कुक्षिवस्तिकटीशूले तेलमे-
रण्डसम्भवम् ॥ ४३ ॥

दशमूलके काथको अथवा सोंठके काथको अंडीके तेलके साथ पान करनेसे कुक्षिशूल, वस्तिशूल और कटिशूल नष्ट होता है ॥ ४३ ॥

महौषधगुडूच्योस्तु क्वाथं पिप्पलिसं-
युतम् । पिबेदामे सरुक्कोष्ठे कटीशूले
विशेषतः ॥ ४४ ॥

सोंठ और गिलोय इनका क्वाथ बनाकर पीपलका चूर्ण डालकर पीनेसे आमवात, कोष्ठशूल और विशेष करके कटिशूल नष्ट होता है ॥ ४४ ॥

विशोधैरण्डबीजानि पिष्ट्वा क्षीरे
विपाचयेत् । तत्पायसं कटीमूले ध्रस्यं
परमौषधम् ॥ ४५ ॥

अण्डके बीजोको शुद्ध करके दूधमें पीसकर खीर पकावे । यह खीर कटिशूल और गुध्रसी वातकी परम औषधि है ॥ ४५ ॥

शुकतरुवल्कलसहितं गोमूत्रं स्था-
पितं तु सप्ताहम् । हिंशुवचाशतपुष्पा-
सैन्धवयुक्तेन तेनाथ ॥ ४६ ॥ तत्पु-

टकेन च हन्यात्कटीरुजं दारुणं पुं-
साम् । आयमेदोवृद्धिभवान्विका-
रांश्चानिलोद्भवान् ॥ ४७ ॥

गिरसकी छालको गोमूत्रमें पीस कर सात दिनतक रख देवे । फिर इसमें हींग, वच, सौंफ और सैधान-मक मिला कर पुटपाकविधिसे पकावे । इसको सेवन करनेसे दारुण कटिशूल, आम और मेदके बढनेसे उत्पन्न हुए विकार और समस्त वातविकार नष्ट होते हैं ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

अमृतादिचूर्ण ।

अमृतानागरगोधुरुमुण्डतिकावरु-
णकैः कृतं चूर्णम् । मस्तधारनालपी-
तं सामानिलनाशनं ख्यातम् ॥ ४८ ॥

गिलोय, सोंठ, गोखरू, गोरखमुण्डी और वरु-नेकी छाल इनका चूर्ण बनाकर दहीके तोड़ अथवा कांजीके साथ पान करनेसे आमवातरोग नष्ट होता है ॥ ४८ ॥

लघुरास्नादि ।

रास्नैरण्डशतावरीसहचराद्दुःस्पर्श-
वासामृता, देवाहातिविषाभयाधन-
शटीशुण्ठीकषायः कृतः । पीतः सो
रुबुतैल एष विहितः सामे सशूलेऽनि-
ले, कट्यूरुत्रिकपार्श्वपृष्ठजठरे कोष्ठे
च वातार्त्तिजित् ॥ ४९ ॥

रास्ना, अडकी जड, शतावर, पियात्राँसा, जवासा, अड्डसा, गिलोय, देवदारु, अतीस, हरड, नागरसोथा, कचूर, और सोंठ इनका क्वाथ बनाकर अंडीका तेल डाल कर पान करनेसे आमवात, शूल, कटिशूल, ऊरु-शूल, त्रिकशूल, पार्श्वशूल, पृष्ठशूल, उदरगत वात, कोष्ठगत और सर्व प्रकारके वातकी पीडा शमन होती है ॥ ४९ ॥

महारास्नादि ।

रास्नावातारिमूलश्च वासकः सदुरा-
लभः । शटीदारुबला मुस्तं नागरा-
तिविषाभया ॥ ५० ॥ श्वदंष्ट्राव्या-
धिघातश्च मिसिधान्यं पुनर्नर्वा ।

अश्वगन्धामृताकृष्णा वृद्धदारुशता-
वरी ॥ ५१ ॥ वचासहचरा चैव च-
विका बृहतीद्वयम् । समभागान्विते-
रेतै रास्त्रा त्रिगुणभागिकैः ॥ ५२ ॥
कषायं पाययेत्सिद्धमष्टभागावशे-
षितम् । शुण्ठीचूर्णसमायुक्तमामा-
द्येन युतं तथा ॥ ५३ ॥ अलंबुषा-
दिसंयुक्तमजमोदादिना तथा ॥ य-
थादोषं यथाव्याधि प्रक्षेपं कार-
येद्विषकू ॥ ५४ ॥ सर्वेषु वातरोगेषु
सन्धिज्जागतेषु च । कुब्जके वामने
चैव पक्षाघाते तथादिते ॥ ५५ ॥
जानुजङ्गास्थिपीडासु गृध्रस्याश्च हनु-
ग्रहे । प्रशस्तवातरक्ते स्यादूरुस्तम्भे
तथाऽर्शसि ॥ ५६ ॥ विश्वाचीगुल्म-
हृद्रोगविपुचीक्रोष्टुशीर्षके । अन्त्रवृ-
द्धौ श्लीपदे च योनिशुक्रामये तथा ॥
॥ ५७ ॥ पुंसां मेढ्रगते रोगे स्त्रीणां
बंध्यामयेऽपि च । योषितां गर्भदं सु-
ख्यं नास्त्यस्मात् परमं क्वचित् ॥५८॥
सर्वेषां पाचनानान्तु श्रेष्ठमेतद्वि पा-
चनम् । महारास्त्रादिको नाम्ना प्र-
जापतिविनिर्मितः ॥ ५९ ॥

रायसन, अंडकी जड, अडूसा, धमासा, कचूर,
देवदारु, खिरंटी, नागरमोथा, सोंठ, अतीस, हरड,
गोखरू, अमलतास, सौंफ, धन्निथां, पुनर्नवा, असगंध,
गिलोय, पीपल, विधारा, शतावर, वच, पियावाँसा,
चव्य, दोनो प्रकारकी खरंटी ये प्रत्येक औषधि समान
भाग लेवे और रास्त्रा इन सबसे तीन भाग लेवे इन
सबको एकत्र मिला कर अष्टावशेष काथ बनावे । इस
काथमे वैद्य दोपानुसार अथवा रोगानुसार सोठका
चूर्ण अथवा आमादि चूर्ण या अलम्बुषाद्य चूर्ण किंवा
अजमोदादि चूर्ण डालकर पान करावे । यह महा-
रास्त्रादि काथ सर्व प्रकारके वात, सन्धिगत वात,
मज्जागत वात, कुब्जकवात, वामनकवात, पक्षाघात,
आर्दित, जानुगत वात, जंघागत वात, अस्थिगत वात,

गृध्रसीवात, हनुग्रह, वातरक्त, ऊर्मन्तम्भ, वचामीर,
निश्वाचीवात, गुल्म, हृदयगोग, विपुची, क्रोष्टुशीर्ष
अन्त्रवृद्धि, श्लीपद, योनिगंग, शुक्रदोष, लिंगगत रोग
और त्रियोके वन्चादि रोगोंमें अत्यन्त हितकारी है
एव स्त्रियोंके गर्भको उत्पन्न करनेवाला है । यह
सम्पूर्ण पाचनोंमें उत्तम पाचन है । यह महारास्त्रादि
काथ-पहले न्यय नगाजीने निर्माण किया
था ॥ ५०-५९ ॥

राम्नादशमूलकाथ ।

राम्नाविश्वविडङ्गानि रुवुकत्रिफला
तथा । दशमूलं पृथक् श्यामाकाथो
वातामयापहः ॥ ६० ॥ अर्द्धावभे-
दके चाढ्यं अर्दिते वातरज्जके ।
नेत्ररोगे शिरःशूले ज्वरापस्मारयो-
स्तथा ॥ मनोभ्रंशे च विविधे क्थि-
तश्च सुखप्रदम् ॥ ६१ ॥

रायसन, सोंठ, वायविडंग अंडकी जड, त्रिफला,
दशमूलको समस्त पृथक् पृथक् औषधि और निसोत
इन सबका काथ बना कर पान करनेसे वातरोग,
अर्द्धावभेदक, आढ्यवात, अर्दितवात, वातरज्ज,
नेत्ररोग, शिरःशूल, ज्वर, अपस्मार और अनेक
प्रकारके मानसिक रोगोंको दूर करता है तथा
सुखको उत्पन्न करता है ॥ ६० ॥ ६१ ॥

अलम्बुषादिचूर्ण ।

अलम्बुषागोक्षुरकत्रिफलानागरामृ-
ता । यथोत्तरं भागवृद्ध्या श्यामा-
चूर्णश्च तत्समम् ॥ ६२ ॥ पिबेन्मस्तु
सुरातक्रकाञ्जिकोष्णोदकेन वा ।
आमवातं जयत्याशु रक्तपित्तं सशो-
णितम् ॥ ६३ ॥ त्रिकजानूरुसन्ध्य-
स्थिज्वरारोचकनाशनम् । अलंबुषा-
दिकं चूर्णं रोगानीकविनाशनम् ॥६४॥
हरीतक्यक्षधात्रीभिः प्रसिद्धा त्रिफ-
ला क्रमात् । प्रत्येकं तेन वा युञ्ज्या-
द्भागवृद्धिर्यथोत्तरम् ॥ ६५ ॥

गोरखमुडी १ भाग, गोखरु २ भाग, त्रिफला ३ भाग, सोठ ४ भाग और गिलोय ५ भाग लेवे और सबके बराबर निसोतका चूर्ण लेवे, सबको एकत्र कूट पीस कर चूर्ण बनावे । इस चूर्णको सुरा, तक्र, कांजी अथवा गरम जलके साथ पान करनेसे आमवात, रक्तपित्त, त्रिक, ऊरु, जानु, सीध, अस्थिगत शूल, ज्वर और अरुचि दूर होती है । यह अलम्बुपादि चूर्ण-सम्पूर्ण रोगोंको दूर करनेवाला है । हरड, वहेडा और आमला, ये प्रत्येक औषधि एकसे दुगुनी लेनी चाहिए अथवा क्रमसे प्रत्येक औषधि बढा कर लेनी चाहिए अर्थात् हरड १ भाग, वहेडे २ भाग और आमले ३ भाग अथवा ४ भाग लेवे । इसको त्रिफला कहते है ॥६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥

आभादिचूर्ण ।

आभारास्नागुडूची च शतावारिमहौषधम् । शतपुष्पाश्वगंधा च हपुषावृद्धदारुकम् ॥ ६६ ॥ यवानी चाजमोदा च समभागानि कारयेत् । सूक्ष्मचूर्णमिदं कृत्वा बिडालपदकं पिबेत् ॥ ६७ ॥ कटिग्रहं गृध्रसीश्च मन्यास्तम्भं हनुग्रहम् । ये च कायगता रोगाः सर्वास्तांश्च प्रणाशयेत् । चूर्णमाभादिनाभेदं सर्ववातविकारनुत् ॥ ६८ ॥

आभा (वणिकू द्रव्य विशेष या ववूरके बीज) रायसन, गिलोय, शतावर, सोठ, सौंफ, असगन्ध, हाऊवेर विधारा, अजवायन और अजमोद ये सब औषधि समान भाग लेकर वारीक चूर्ण कर लेवे । प्रतिदिन इसमेसे एक तोला प्रमाण खाय । यह चूर्ण-कटिग्रह, गृध्रसी, मन्यास्तम्भ, हनुग्रह और सम्पूर्ण शरीरगत रोगोंको एवं सब प्रकारके वातविकारोंको नष्ट करता है ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥

द्वितीय अलम्बुपादिचूर्ण ।

अलम्बुषागोक्षुरुकं गुडूचीवृद्धदारुकम् । पिप्पलीत्रिवृतामुस्तं वरुणं सपुनर्नवम् ॥ ६९ ॥ त्रिफलानागरश्चैव सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् । भस्त्वारनालतक्रेण पयो मांसरसेन वा ।

आमवातं जयत्याशु श्वयथुं सन्धि-संस्थितम् ॥ ७० ॥

गोरखमुण्डी, गोखरु गिलोय, विधारा, पीपल, निसोत, नागरमोथा, वरनेकी छाल, पुनर्नवा, त्रिफला और सोठ ये प्रत्येक औषधि समान भाग लेकर वारीक चूर्ण कर लेवे । इस चूर्णको दहीके तोड, कांजी, तक्र, दूध अथवा मांसरसके साथ सेवन करे तो आमवात और संधिगत सूजन शीघ्र ही दूर होजाती है ॥ ६९ ॥ ७० ॥

वैश्वानरचूर्ण ।

माणिमन्थस्य भागौ द्वौ यवान्यास्तावदेव तु । भागास्त्रयोऽजमोदाया नागराद्भागपञ्चकम् ॥ ७१ ॥ दश द्वौ च हरीतक्याः श्लक्ष्णचूर्णीकृतं शुभम् । मस्त्वारनालतक्रेण सर्पिषोष्णोदकेन वा ॥ ७२ ॥ पीतं जयत्यामवातं गुल्महृद्वास्तिजान्गदान् । प्लीहानं हन्ति शूलादीनानाहं गुदजानि च ७३ ॥ विबन्धं जाठरात्रोगांस्तथा वै हस्तपादजान् । वातानुलोमनमिदं चूर्णं वैश्वानरं स्मृतम् ॥ ७४ ॥

सैधानमक २ भाग, अजवायन २ भाग, अजमोद ३ भाग, सोठ ५ भाग और हरड १२ भाग लेवे, सबको एकत्र पीसकर वारीक चूर्ण कर लेवे, इस चूर्णको दहीके तोडके साथ, कांजीके साथ, दहीके साथ, तक्रके साथ, अथवा गरम जलके साथ सेवन करे तो आमवात, गुल्म, हृदयरोग, वस्तिगत रोग, प्लीहा, शूलादिक, आनाह, ववासीर, विबन्ध, उदररोग और हस्त पांवाँके समस्त रोगोंको दूर करता है । यह वैश्वानर चूर्ण-वातको अनुलोमन करनेवाला है ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥

शुण्ठीघृत ।

पुष्ट्यर्थं पयसा साध्यं दध्ना विण्मूत्रसंग्रहे । दीपनार्थं मत्तिमता मस्तुना वा प्रकीर्तितम् ॥ ७५ ॥ सर्पिर्नागर-

कल्केन सौवीरकचतुर्गुणम् । सिद्धम-
ग्निकरं श्रेष्ठमामवातहरं परम् ॥ ७६ ॥

सोठके कल्कके द्वारा चौगुनी सौवीर नामवाली कांजीमे घृतको सिद्ध करे । यह घृत-अग्निको दीपन करनेवाला और आमवातको हरनेवाला है जो इसको पुष्टिके लिये बनाना हो तो इस घृतको दूधके द्वारा पकाना चाहिए । जो मल मूत्रके विवन्धका दूर करनेके लिये पकाना हो तो दहीके द्वारा सिद्ध करे और जो इसको अग्निदीपन करनेके लिये बनाना हो तो दहीके तोडके द्वारा सिद्ध करे ॥ ७५ ॥ ७६ ॥

द्वितीय शुण्ठीघृत ।

नागरकाथकल्काभ्यां घृतप्रस्थं विपा-
चयेत् । चतुर्गुणेन तेनाथ केवलेन ज-
लेन वा ॥ ७७ ॥ वातश्लेष्मप्रशमनम-
ग्निसन्दीपनं परम् । नागरं घृतमित्यु-
क्तं कटीशूलामनाशनम् ॥ ७८ ॥

सोठके करक और चौगुने काथके द्वारा अथवा केवल चौगुने पानीके द्वारा घृतको पकावे । यह घृत-वातकफको शमन करनेवाला, अग्निको दीपन करनेवाला और कटिशूल तथा आमवातको नष्ट करता है ॥ ७७ ॥ ७८ ॥

काञ्जिकादिघृत ।

हिंगुत्रिकटुकं चव्यं माणिमन्थं तथैव
च । कल्कान्कृत्वा पृथक्सर्वान्घृतप्रस्थं
विपाचयेत् ॥ ७९ ॥ आरनालाढकं
दत्त्वा तत्सर्पिर्जाठरापहम् । शूलं
विवन्धमानाहमामवातं कटिग्रहम् ॥
नाशयेद्गृहणीदोषं मन्दाग्नेदीपनं प-
रम् ॥ ८० ॥

हींग, त्रिकुटा, चव्य और सैधानमक इन सबका पृथक् पृथक् कल्क बना कर एक प्रस्थ घृतको एक आढक कांजीके द्वारा पकावे । यह घृत-उदररोग, शूल, विवन्ध, आनाह, आमवात, कटिग्रह और ग्रहणी रोगको नष्ट करता है तथा अग्निको दीपन करता है ॥ ७९ ॥ ८० ॥

शृङ्गवेरादिघृत ।

शृङ्गवरं यवक्षारं पिप्पलीमूलपिप्प-
ली । सचव्यं चित्रकं हिंगु माणिमन्थं
तथैव च ॥ ८१ ॥ कल्कं कृत्वा तु
मतिमान्घृतप्रस्थं विपाचयेत् । आर-
नालाढकं दत्त्वा तत्सर्पिर्जाठरापह-
म् ॥ ८२ ॥ शूलं विवन्धमानाहमा-
मवातं कटिग्रहम् । नाशयेद्गृहणीरो-
गमग्निसन्दीपनं परम् ॥ ८३ ॥

अदरस्य, जवाग्यार, पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, हींग और सैधानमक इन औषधियोंके कल्कके द्वारा एक प्रस्थ घृतको एक आढक कांजीमे पकावे । यह घृत-उदररोग, शूल, विवन्ध, आनाह, आमवात, कटिशूल और सग्रहणीको नष्ट करता है तथा अग्निको दीपन करता है ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥

पिवेद्विन्दुघृतं वापि धान्वन्तरमथापि
वा । महाशुण्ठीघृतं चैव सामवाते
पुनः पुनः ॥ ८४ ॥ यत्किञ्चिल्लेखनं
सर्पिर्दीपनं पाचनञ्च यत् । तत्सर्वमाम-
वातेषु योज्यं वा मस्तुना घृतम् ॥ ८५ ॥

आमवात रोगमे विन्दुघृत अथवा धान्वन्तरघृत या महाशुण्ठी घृत त्रारवार पान करे । जो घृत लेखन दीपन और पाचन है वे सब आमवात रोगमें प्रयोग करने चाहिए । अथवा मस्तुघृतको सेवन करना चाहिए ॥ ८४ ॥ ८५ ॥

अजमोदादिवटक ।

अजमोदमरिचिपिप्पलीविडङ्गसुरदा-
रुचित्रकशताह्वाः । सैन्धवपिप्प-
लीमूलं भागा नवकस्य पलिकाः
स्युः ॥ ८६ ॥ शुण्ठी दशपलिका
स्यात्पलानि तावन्ति वृद्धदारस्य ।
अभयापलानि पञ्च तच्चूर्णं कारये-
च्छूलणम् ॥ ८७ ॥ समगुडवटकान-
दतश्चूर्णं वा क्रोष्णवारिणा पिबतः ।
नश्यन्त्यामानिलजाः सर्वे रोगाः

सुदारुणाः शीघ्रम् ॥ ८८ ॥ विषूचि-
काप्रतितूनीतूनीहृद्रोगा गृध्रसी चो-
प्रा । कटिवास्तिगुदस्फुटनं चैवास्थि-
जङ्घयोस्तीव्रम् ॥ ८९ ॥ श्वयथुस्तथा-
ङ्गसान्धिषु ये चान्ये चामवातसंभू-
ताः । सर्वे प्रयान्ति नाशं तम इव
सूर्याशुविध्वस्तम् ॥ ९० ॥ क्षुद्धोध-
नमारोग्यं स्थिरतरुणं वलीपलितना-
शनञ्च । कुरुते सतताभ्यासाद्गुणा-
नन्यास्तथा सुबहून् ॥ ९१ ॥

अजमोद, कालीमिरच, पीपल, चायविडंग, देव-
दारु, चीता, सौफ, सैधानमक और पीपलामूल ये
प्रत्येक औषधि चार चार तोले, सांठ ४० तोले,
विधारा ४० तोले, और हरड २० तोले लेवे, इन
सबको एकत्र चारीक पीस कर चूर्ण करे । फिर इस
चूर्णमे बराबरका गुड मिलाकर बंड बनावे । इन
बंडोंको सेवन करनेसे अथवा उपरोक्त चूर्णको गरम
जलके साथ सेवन करनेसे आमवातरोग, हृदयरोग सर्व
प्रकारके दारुणरोग, विषूचिका, प्रतितूनी, तूनी, उग्र-
गृध्रसारोग, कटिशूल, वस्तिशूल, गुदस्फुटन, अस्थि
और जघागत तीव्र वातकी पीडा, संपूर्ण अंग और
संधियोंमे प्राप्त हुई सूजन और अन्यान्य समस्त
आमवातसबधी रोग इस प्रकार दूर होते हैं जिस-
प्रकार सूर्यसे अंधकारका समूह नष्ट होजाता है । इस
अजमोदादिचूर्णका सदैव अभ्यास करनेसे क्षुधाकी
वृद्धि होती है, आरोग्य बढता है, जीवनअवस्था
स्थिर होती है, बली और पलितादि रोग नष्ट होते हैं
तथा अन्यान्य बहुतसे गुणोंको उत्पन्न करता
है ॥ ८६-९१ ॥

योगराजगूगल ।

चित्तकं पिप्पलीमूलं यवानी कारवी
तथा । विडङ्गमजमोदा च जीरकं
सुरदारु च ॥ ९२ ॥ चव्यैला सैन्धवं
कुष्ठं रास्नागोक्षुरधान्यकम् । त्रिफ-
लामुस्तकं व्योषं त्वगुशीरं यवाग्रज-
म् ॥ ९३ ॥ तालीशपत्रं पत्रञ्च सूक्ष्म-
चूर्णानि कारयेत् । यावन्त्येतानि चू-
र्णानि तावन्मात्रञ्च गुग्गुलुः ॥ ९४ ॥

संमर्द्य सर्पिषा गाढं स्निग्धभाण्डे
निधापयेत् । ततो मात्रां प्रयुञ्जीत
यथेष्टाहारवानपि ॥ ९५ ॥ योगराज
इति ख्यातो योगोऽयममृतोपमः ।
आमवाताढ्यवातादीन्कृमिदुष्टव्रणा-
नि च ॥ ९६ ॥ प्लीहगुल्मोदरानाह-
दुर्नामानि विनाशयेत् । अग्निश्च कु-
रुते दीप्तं तेजो वृद्धिबलं तथा ॥ वा-
तरोगाश्रयत्येष सन्धिमज्जागतान-
पि ॥ ९७ ॥

चीता, पीपलामूल, अजवायन, कलोजी, वाय-
विडंग, अजमोद, जीरा, देवदारु, चव्य, बडी इला-
यची, सैधानमक, कूट, रायसन, गोखरू, धनियाँ,
त्रिफला, नागरमोथा, त्रिकुटा, दालचीनी, खस,
जवाखार, तालीसपत्र और तेजपत्र ये प्रत्येक औषधि
समान भाग लेवे और सबकी बराबर गूगल लेवे,
सबको एकत्र कूट पीसकर चूर्ण कर लेवे । इस
चूर्णको और गूगलको घीमे खूब अच्छे प्रकारसे मर्दन
करके एक उत्तम चिकने वासनमे भर कर रख देवे,
रोगीकी अग्निके बलानुसार इसकी मात्राका निरूपण
करे । इस पर यथेच्छ भोजन करे । यह योगराजगू-
गल अमृतके समान है । यह-आमवातादि, कृमि,
दुष्टव्रण, प्लीहा, गुल्म, उदररोग, आनाह, बवासीर
और संधिमज्जागत आदि सर्व प्रकारके वातरोगोंको
शमन करता है । तथा अग्निको दीपन, तेज और
बलको बढाता है ॥ ९२-९७ ॥

शुण्ठीखण्ड ।

नागरस्य पलान्यष्टौ घृतस्य पलविं-
शतिः । क्षीराढकसमायुक्तं खण्ड-
स्यार्धशतं पलम् ॥ ९८ ॥ व्योषत्रिजात-
कद्रव्यात्प्रत्येकञ्च पलं पलम् । निद-
ध्याञ्चूर्णितं तत्र खादेदग्निबलं प्रति ॥
॥ ९९ ॥ आमवातप्रशमनं बलपुष्टि-
विवर्धनम् । बल्यभायुष्यमोजस्यं व-
लीपलतनाशनम् ॥ १०० ॥

सांठ ३२ तोले, घी ८० तोले, दूध एक आढक
परिमाण, खंड ५० पल, त्रिकुटा और त्रिजातकी

प्रत्येक औषधिका चूर्ण चार २ तोले, इन सबको उत्तम विधिसे मिला कर पाक करे । पहले शुण्ठीको दूधमे डाल कर खोया बनावे फिर घी डाल कर भून ले फिर चूर्ण मिला कर खाँड मिलावे । इस शुण्ठी खण्डको अग्निके बलानुसार भक्षण करे । यह आमवातको गमन करनेवाला, बल और पुष्टिको बढ़ानेवाला, बलकारक, अवस्थाको स्थापन करनेवाला, ओजको बढ़ानेवाला और वली तथा पलितको नष्ट करता है ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥

रसोनपिण्ड ॥

पलं शतं रसोनस्य तिलस्य कुडवं तथा । हिंशुत्रिकटुकं क्षारौ द्वौ पञ्चलवणानि च ॥ १०१ ॥ शतपुष्पा तथा कुष्ठं पिप्पलीमूलचित्रकौ । अजमोदा यवानी च धान्यकञ्चापि बुद्धिमान् ॥ ॥ १०२ ॥ प्रत्येकञ्च पलञ्चैषां श्लक्ष्णचूर्णानि कारयेत् । घृतं भाण्डे दृढे चैव स्थापयेद्दिनषोडशम् ॥ १०३ ॥ प्रक्षिपेत्तैलमानीय प्रस्थाद्धं काञ्जिकस्य च । खादेत्कर्षप्रमाणन्तु तोयं मद्यं पिवेदनु ॥ १०४ ॥ आमवाते तथा वाते सर्वाङ्गिकाङ्गसंस्थिते । अपस्मारेऽनले मन्दे श्वासे कासे गोरुषु च । सोन्मादे वातभग्ने च शूले जन्तुषु शस्यते ॥ १०५ ॥

लशुन १०० पल, तिल १ कुडव परिमाण, हींग, त्रिकुटा, जवाखार, सजीखार, पांचो लवण, सौफ, कूठ, पीपलामूल, चीता, अजमोद, अजवायन और धनियाँ ये प्रत्येक औषधि चार २ तोले लेकर वारीक चूर्ण करलेवे । इस चूर्णको घीके चिकने वासतमे भर कर १६ दिनतक रक्खे, फिर इसमें ३२ तोले तेल और ३२ तोले कांजी मिला देवे । इसमेंसे प्रतिदिन एक तोला प्रमाण खाय । इसपर जल अथवा मदिराका अनुपान करे । यह रसोनपिण्ड-आमवात, वात, सर्वांगवात, एकांगवात, अपस्मार, मदाग्नि, श्वास, खाँसी, विपदोप, उन्माद, वातभग्न और सर्व प्रकारके वातशूलोंको नष्ट करता है ॥ १०१ ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ १०५ ॥

प्रसारिणीतैल ।

प्रसारिण्या रसे सिद्धं तैलमैरण्डजं पिबेत् । सर्वदोषहरञ्चैव कफरोगहरं परम् ॥ १०६ ॥

प्रसारिणीके काथमे अथवा स्वरसमें अंडीका तेल पकाकर सेवन करे । यह तेल-सम्पूर्ण दोषोंको हरनेवाला और कफरोगको नष्ट करनेवाला है ॥ १०६ ॥

द्विपञ्चमूलादितैल ।

द्विपञ्चमूलीनिर्यासफलदध्याम्लकाञ्जिकैः । तैलं कट्यूरुपाश्वार्त्तिकफवातामतद्गदान् ॥ १०७ ॥ हन्ति बस्तिप्रदानेन करोत्यग्निबलं महत् ॥ १०८ ॥

दशमूलका काथ, गोद और फल, दही और कांजीके द्वारा तेलको पकावे । इस तेलके द्वारा बस्ति लगानेसे कटि, ऊरु, पार्श्वशूल, कफ और वात तथा आमसे उत्पन्न हुए रोग नष्ट होते हैं तथा अग्निकी अत्यत वृद्धि होती है ॥ १०७ ॥ १०८ ॥

बृहत्सैन्धवादितैल ।

सैन्धवं श्रेयसी रास्ना शतपुष्पा यवानिका । स्वर्जिका मरिचं कुष्ठं शुण्ठी सौवर्चलं विडम् ॥ १०९ ॥ वचाजमोदाजरणं पौष्करं मधुकं कणा । एतान्यर्धपलांशानि सूक्ष्मपिष्टानि कारयेत् ॥ ११० ॥ प्रस्थमैरण्डतैलस्य प्रस्थं स्याच्छतपुष्पजम् । काञ्जिकं द्विगुणं दत्त्वा मस्तु च द्विगुणं तथा ॥ १११ ॥ एतत्संभृत्य संभारं शनैर्मृद्वग्निना पचेत् । सिद्धमेतत्प्रयोक्तव्यमामवातहरं परम् ॥ ११२ ॥ पानाभ्यञ्जनवस्तौ च कुरुतेऽग्निबलं भृशम् । वातार्त्तिवङ्क्षणे शस्तं कटीजानूरुसन्धिजे ॥ ११३ ॥ शूले हत्पाश्वजे चैव वातश्लेष्मनिपीडिते । बाह्यायामार्दितानाहेष्वन्वृद्धिनिपीडिते ॥ अन्यांश्चानिलजात्रोगान्नाशयत्याशु देहजान् ॥ ११४ ॥

सैधानमक, हरड, रायसन, सौफ, अजवायन, सजी, काली मिरच, कूठ, सोंठ, काला नमक, विड-नमक, वच, अजमोद, जीरा, पोहकरमूल, मुलैठी और पीपल ये प्रत्येक औषधि दो २ तोले लेकर कूट पीस कर वारीक चूर्ण कर लेवे । फिर इस चूर्णमें अंडीका तेल १ प्रस्थ, सौफका तेल १ प्रस्थ, कांजी २ प्रस्थ और दहीका तोडर २ प्रस्थ मिला कर विधिपूर्वक मंद मंद अग्निसे तेलको पकावे । यह तेल आमवातको नष्ट करनेवाला है । इसको पान, अभ्यंजन और वस्तिकर्ममें प्रयोग करे । यह अत्यन्त अग्निके बलको बढ़ानेवाला है तथा वातकी पीडा, वंक्षणशूल, कटिशूल, जानुगतशूल, उरःशूल, संधिगतशूल, हृदयशूल, पार्श्व-शूल, वातकफके रोग, बाह्यायाम, अर्दित, आनाह, अंत्रवृद्धि और अन्यान्य वातके रोगोंको दूर कर देता है ॥ १०९-११४ ॥

निरूह ।

स्वल्पसारिणीतैलं वा सैन्धवा-
दिकम् । दशमूलाद्यतैलेन वस्तिदा-
नं प्रशस्यते ॥ ११५ ॥ तैलस्य द्विपलं
दद्यात्काञ्जिकस्य चतुष्पलम् । दश-
मूलरसं मूत्रं पृथक्पञ्चपलानि च ॥ ११६ ॥
वचामदनयष्ट्याद्वाशताद्वाकुष्ठसैन्ध-
वैः । पिप्पल्यतिविषामुस्तारास्नाक-
टफलपौष्करैः ॥ ११७ ॥ अक्षांशि-
कैश्च तत्सर्वं मन्ययीत विचक्षणः ।
प्रस्थार्धं प्रथमं देयो वस्तिभिर्वा-
विशंकितः ॥ ११८ ॥ द्वितीये च
तृतीये च वर्जयेत्प्रसृतद्रव्यम् । स-
र्ववातविकारेषु मोहे च वृषणामये ॥
॥ ११९ ॥ कुक्षौ हृत्पार्श्वपृष्ठेषु जानु-
जंघाकटिग्रहे । विबन्धानाहरोगेषु
शर्कराश्रमरिपीडिते ॥ १२० ॥ भ्रमा-
स्थिपृष्ठगात्रेषु पिच्चितेषु क्षतेषु च ।
एतन्निरूहवत्प्राज्ञो निरायासो महा-
गुणः ॥ १२१ ॥

इसमें लघुप्रसारिणी तैलकी अथवा सैन्धवादि तैलकी अथवा दशमूलादि तैलकी पिचकारी लगावे । इस

पिचकारीमें तेल ८ तोले, कांजी १६ तोले, दशमूलका रस बीस तोले और गोमूत्र बीस तोले लेवे । फिर इन सब पदार्थोंको एकत्र मिला कर वच, मैनफल, मुलैठी, सौफ, कूठ, सैधानमक, पीपल, अतीस, नागरमोथा, रास्ना, कायफल और पोहकरमूल ये प्रत्येक एक २ तोला लेकर पहले मिश्रित किये हुए तैल आदि औषधि-योंका मथन करे फिर कपड़ेसे छान कर निःशंक होकर बत्तीस तोले इस द्रवकी पिचकारी लगावे । दूसरी बार तथा तीसरी बार चौबीस तोले इस द्रवकी पिच-कारी लगावे । सर्व प्रकारके वातविकार, प्रमेह, वृष-णकी पीडा, कुक्षिरोग, हृदयरोग, पीठकी पीडा, पसलियोंकी पीडा, जानुगत वायुकी पीडा, जंघागत वायुकी पीडा, कमरका दर्द, विबन्ध, अफारा, शर्क-रारोग, अश्मरी, भ्रमशरीर और पिच्चित हुए व्रणमें यह निरूहवस्ति अत्यन्त गुणकारक है और इसमें कुछ कष्ट नहीं होता है ॥ ११५-१२१ ॥

पथ्यापथ्य ।

दधि मत्स्यं गुणक्षीरं पोतकीमाषपि-
ष्टकम् । वर्जयेदामवातात्तो मांसमा-
नूपजश्च यत् ॥ १२२ ॥

दही, मछली, गुड, दूध, पोईका शाक, उदद, पिष्टक और आनूपदेशके जीवोंका मांस ये सब आम-वातरोगी त्याग देवे ॥ १२२ ॥

अभिष्यन्दिकरा ये च ये चान्ये गुरु-
पिच्छलाः । वर्जनीयाः प्रयत्नेन आम-
पीडादितैर्नरैः ॥ १२३ ॥

तथा जो अभिष्यन्द करनेवाले पदार्थ हैं, एवं भारी और पिच्छिलपदार्थ इन सबको आमवातवाला रोगी त्याग देवे ॥ १२३ ॥

शोकाक्षेपकसंकोचस्तम्भश्वयथुकम्प-
नम् । हनुग्रहादितं खड्गं पांगुल्यं सुप्त-
वातता ॥ १२४ ॥ सन्धिच्युतिः पर्व-
भेदो भेदोमज्जास्थिजा गदाः । एते
स्थानस्य गाम्भीर्यात्सिध्येर्युर्थततो
नवाः । तस्माज्जयेन्नवान्येव सुभिष-
ङ्गनिरूपद्रवान् ॥ १२५ ॥

शोक, आक्षेपक, संकोच, स्तम्भ, शोथ, कम्प, हनुग्रह, अर्दित, खंजता, पंगुता, सुप्तघात, संधि-भङ्ग, पर्वभेद, मेद, मज्जा और अस्थिगतरोग ये सब स्थानकी गम्भीरताके कारण नवीन अवस्थामे वडे यत्नसे चिकित्सा करने पर आरोग्य होसकते है । इस कारण वैद्यको उचित है कि, इनको नवीन ही अवस्थामें उपद्रवरहित होनेपर जीने क्योंकि पश्चात् कष्टसाध्य और असाध्य होते-हैं ॥ १२४ ॥ १२५ ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां आमवात-
चिकित्साधिकार समाप्त ॥ २७ ॥

अथ शूलरोगाधिकार ।

शूलनिदान ।

दोषैः पृथक्समत्तामद्वन्द्वैः शूलोऽष्टधा
भवेत् । सर्वेष्वेतेषु शूलेषु प्रायेण
पवनः प्रभुः ॥ १ ॥

वातज, पित्तज, कफज, वातापित्तज, पित्तकफज, वातश्लेष्मज, त्रिदोषज और आमजनित इस प्रकार शूलरोग आठ प्रकारका है । परन्तु इन सब शूलोमे वायु प्रधान है । कारण यह है कि प्रायः शूलरोग विना वायुके उत्पन्न नहीं होता है ॥ १ ॥

व्यायामयानादतिमैथुनाच्च प्रजाग-
राच्छीतजलातिपानात् । कलायमु-
द्राढकिकोरदूषादत्यर्थरूक्षाध्यशना-
भिघातात् ॥ २ ॥ कषायत्किाति-
विरूढजान्नविरुद्धवल्लूरकशुष्कशा-
कात् । विट्शुक्रमूत्रानिलवेगरोधा-
च्छोकोपवासादतिभाष्यहास्यात् ॥ ३ ॥
वायुः प्रवृद्धो जनयेद्वि शूलं हृत्पार्श्व-
पृष्ठत्रिकं वस्तिदेशे । जीर्णे प्रदोषे च
घनागमे च शीते च कोपं समुपैति
गाढम् ॥ ४ ॥ सुहृर्मुहुश्चोपशमप्रको-
पो विद्घातसंस्तम्भनतोदभेदैः । सं-

स्वेदनाभ्यञ्जनमर्दनाद्यैः स्निग्धान्नभो-
ज्यैश्च सभं प्रयाति ॥ ५ ॥

व्यायाम (अधिक दंड कसरत करना), बोडे हाथी आदिकी अधिक सवारी करना, अत्यन्त खीप्रसंग, रात्रिमें जागना, अधिक शीतल जलको पीना, मटर, मूंग, अरहर, कोदो तथा अन्यान्य रूक्ष अन्नको अतिशय सेवन करनेसे, अजीर्णमें भोजन करनेसे, चोटके लगनेसे, कपड़े और कडवे पदार्थोंको अत्यन्त सेवन करनेसे, जिसमें अंकुर निकल आये हो ऐसे अन्नको भक्षण करनेसे, विरुद्ध भोजन (दूधके साथ मछली आदि) खानेसे, सूखेमांस और सूखे शाकको भक्षण करनेसे, मल मूत्र और वायुके वेगको रोकनेसे, शोक, उपवास, बहुत जोरसे हँसनेसे और बहुत जोरसे बोलनेसे, वायु बढकर हृदय, पार्श्व, पृष्ठ और त्रिकस्थान तथा वस्तिस्थानमें शूलको उत्पन्न करती है। वह शूल भोजनके पचनेपर, संध्याकालमें, वर्षा और शीतऋतुमें अत्यन्त कोपको प्राप्त होता है। तथा वह शूल वारंवार कुपित और वारंवार शांत होता है। इसमें विष्टा तथा मूत्र रुक जाता है। सुई चुभानेके समान और विदारनेके समान पीडा होती है। स्वेदन, अभ्यञ्जन और तैलादिके मलनेसे तथा स्निग्ध और उष्ण पदार्थोंको भक्षण करनेसे यह शूल शांत होजाता है ॥ २-५ ॥

चिकित्सा ।

वमनं लंघनं स्वेदः पाचनं फलवर्त्त-
यः । क्षारचूर्णानि गुटिका शस्यते
शूलशान्तये ॥ ६ ॥

वमन, लंघन, स्वेद, पाचन, फलवर्त्त (गुदाके द्वारा वृत्ती चढाना), क्षार, चूर्ण और गुटिका ये सब उपचार शूलकी शांतिके लिये करने चाहिये ॥ ६ ॥

विज्ञाय वातशूलन्तु स्नेहस्वेदैरुपाच-
रेत् । पायसैः कृशरापिण्डैः स्निग्धैः-
र्वा पिशितोत्कटैः ॥ ७ ॥ आशुकारी
हि पवनस्तस्मात्तं त्वरया जयेत् ।
तस्य शूलाभिपन्नस्य स्वेद एव सुखा-
वहः ॥ ८ ॥

वातशूलको जानकर खीर, खिचड़ी, स्निग्ध भोजन अथवा जिसमें मांसके पदार्थ अधिक हों ऐसे पदार्थोंके द्वारा स्नेहन और स्वेदन करना हितकारी है । यह वातशूल मनुष्यको तत्काल मार देता है इस कारण इसको शीघ्र ही जीतना चाहिए । प्रायः शूलसे पीड़ित मनुष्यके पसीना निकलवाना ही सुखकर है ॥ ७ ॥ ८ ॥

**विल्वैरण्डतिलैः कृत्वा गुटिकामम्ल-
पेषिताम् । वातशूलोपशान्त्यर्थं प्रमृ-
ज्यादुष्णया तथा ॥ ९ ॥**

वेलगिरी, अण्डकी जड़ और तिल इनको एकत्र कांजीमें पीसकर गोली बनावे, इन गोलियोंको गरम करके पेटपर फिरानेसे वातका शूल शांत होता है ॥ ९ ॥

**तिलैश्च गुटिकां कृत्वा भ्रामयेज्जठरो-
परि । गुटिका शमयत्याशु शूलञ्चैव
सुदुस्तरम् ॥ १० ॥**

तिलोंको पीसकर गोली बना कर गरम करके पेटपर फिरानेसे दुस्तर शूल दूर होता है ॥ १० ॥

**नाभिलेपाज्जयेच्छूलं मदनः काञ्चि-
कान्वितः । जीवन्तीमूलकलको वा
सर्तैलः पार्श्वशूलहा ॥ ११ ॥**

मैनफलको कांजीमें पीस कर नाभिके ऊपर लेप करनेसे शूल दूर होता है । जीवन्तीकी जड़को तेलमें पीस कर लेप करनेसे पार्श्वशूल दूर होता है ॥ ११ ॥

**वातात्मकं हन्त्याचिरेण शूलं स्नेहेन
युक्तस्तु कुलिथयूषः । ससैन्धवो व्यो-
षयुतः सलावः सहिगुसौवर्चलदा-
डिमाह्वयः ॥ १२ ॥**

स्नेहयुक्त कुलिथीके यूपमें सैधानमक, त्रिकुटेका चूर्ण अथवा लवके मांसमें हींग, कालानमक और अनार-दाना मिला कर सेवन करनेसे वातजशूल तत्काल शांत होता है ॥ १२ ॥

बलादिचूर्ण ।

**बलापुनर्नवैरण्डबृहतीद्वयगोक्षुरम् ।
सहिगुलवणोपेतं सद्यो वातरुजाप-
हम् ॥ १३ ॥**

खिरैटी, पुनर्नवा, अंडकी जड़, बड़ी कटेरी, कटेरी, गोखरू, हींग और सैधानमक इनको एकत्र मिला कर सेवन करनेसे वातजशूल तत्काल नष्ट होता है ॥ १३ ॥

तुंबुरादिचूर्ण ।

**तुम्बुरुष्यभयाहिंशु पौष्करं लवण-
त्रयम् । पिवेद्यवांबुना वातशूलगुल्मा-
पतन्त्रकी ॥ १४ ॥**

तुम्बुरु, हरड, हींग, पोहकरमूल और तीनो लवण इनको एकत्र पीस कर जौकी कांजीके साथ सेवन करनेसे वातशूल, गुल्म और अपतन्त्रक रोग दूर होता है ॥ १४ ॥

**हिंश्वम्लकृष्णामलकं यवानी क्षारा-
भयासैन्धवतुल्यभागम् । चूर्णं पिवेद्वा-
रुणिमण्डमिश्रं शूले प्रवृद्धेऽनिलजे
शिवाय ॥ १५ ॥**

हींग, नींबू, पीपल, आमले, अजवायन, जवाखार, हरड और सैधानमक ये सब औषधि समान भाग लेकर वारीक चूर्ण कर लेवे, इस चूर्णमें सुरामंड मिला कर पान करनेसे अत्यन्त बढा हुआ वातका शूल नष्ट होता है ॥ १५ ॥

**विश्वमैरण्डजं मूलं काथयित्वा जलं
पिवेत् । हिंशुसौवर्चलोपेतं सद्यः शू-
लनिवारणम् ॥ १६ ॥**

सोंठ और अंडकी जड़ इनका काथ बना कर उसमें हींग और कालानमक डाल कर पीनेसे तत्काल वातका शूल नष्ट होता है ॥ १६ ॥

**विश्वैरण्डयवकाथः सद्यः शूलनि-
वारणः । तद्वदिन्द्रयवकाथो हिंशु-
सौवर्चलान्वितः ॥ १७ ॥**

सोंठ, अंडकी जड़ और जौ इनका काथ बना कर पीनेसे तत्काल शूल नष्ट होता है । तथा इन्द्रजौका काथ बना कर उसमें हींग और कालानमकका चूर्ण डाल कर पीनेसे तत्काल शूल नष्ट होता है ॥ १७ ॥

यवानीहिंशुसिन्धूथक्षारसौवर्चला-

भयाः । सुरामण्डेन पातव्या वात-
शूलनिपूदनाः ॥ १८ ॥

अजवायत, हींग, सैधानमक, जवाखार, कालानमक और हरड इनको एकत्र करके सुराके मण्डके साथ पान करनेसे वातका शूल नष्ट होता है ॥ १८ ॥

शूले निरन्नकोष्ठे हि कोष्णाद्भिश्चूर्णिताः पिबेत् । हिंशुप्रतिविषाव्योष-
वचासौवर्चलाभयाः ॥ १९ ॥

हौन, अतीस, त्रिकुटा, वच, कालानमक और हरड इनका चूर्ण बना कर बिना भोजन किये अर्थात् खाली पेटपर मन्दोष्ण जलके साथ पान करनेसे शूलरोग शमन होता है ॥ १९ ॥

पित्तशूलनिदान ।

क्षारातितीक्ष्णोष्णविदाहितैलनि-
ष्पावपिण्याककुलित्थयूर्षैः । कटुम्ल-
सौवीरसुराविकारैः क्रोधानलाया-
सरविप्रतापैः ॥ २० ॥ ग्राम्यातियो-
गादशनैर्विदग्धैः पित्तं प्रकुप्याशु क-
रोति शूलम् । तृणमोहदाहार्तिकरं
हि नाभ्यां संस्वेदमुच्छ्राभ्रमदोषयु-
क्तम् ॥ २१ ॥ मध्यान्दिने कुप्याति चा-
र्द्धरात्रे विदाहकाले जलदात्यये च ।
शीते च शीतैः समुपैति शान्तिं
सुस्वादुशीतैरपि भोजनैश्च ॥ २२ ॥

जवाखार, अति तक्षिण, उष्ण और दाहकारक एवं तैल, निष्पाव (सेम), खल, कुलथीका यूप, कटु, अम्ल, सौवीर (एक प्रकारकी काजी) मुक्तयासिकी और अनेक प्रकारके सुराविकार इनको भक्षण करनेसे तथा क्रोध, अग्निका सेवन, परिश्रम, धूपसे फिरना और अत्यंत भैथुन करना एवं विदग्धपाकी अन्नका भक्षण करना इत्यादि कारणोंसे पित्त दूषित होकर, शीघ्र ही नाभिमें शूलको उत्पन्न करता है । वह शूल, तृपा, मोह, दाह और घोर वेदनाको उत्पन्न करता है तथा पसीना, मूर्च्छा और भ्रमको करता है । यह शूल-मध्याह्नके समय, अर्धरात्रिके समय, भुक्त-द्रव्योंके विदग्धपाकके समय अथवा ग्रीष्मऋतु और

शरदृतुमें अधिक वृद्धिको प्राप्त होता है । स्वादिष्ठ और शीतल पदार्थोंके भोजन करनेसे, शीतल पवन आदिके लगनेसे, शीत कालमें यह शूल शान्त होता है ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥

पित्तशूलकी चिकित्सा ।

गुडशालीयवाः क्षीरं सर्पिष्पानं वि-
रेचनम् । जाङ्गलानि च मांसानि
भेषजं पित्तशूलिनः ॥ २३ ॥

गुड, शालिचावल, दूध, घृतपान, विरेचन और जांगलदेशके जीवोंका मांस ये सब पित्तजशूलकी औषधि हैं अर्थात् पित्तके शूलमें ये सब सेवन करने चाहिये ॥ २३ ॥

वामयेत्पित्तशूलार्त्तं पटोलेशुरसादि-
भिः । पश्चाद्द्विरेकयेत्सम्यक् पित्तगु-
ल्मविरेचनैः ॥ २४ ॥

पित्तशूलसे पीड़ित मनुष्यको परवल और ईखका रस आदिके द्वारा वमन करावे पश्चात् पित्तगुल्ममें जो विरेचनकी औषधि कही है, उन औषधियोंके द्वारा अच्छे प्रकारसे विरेचन देवे ॥ २४ ॥

शीतावगाहाः पुलिनाः सवाता
भांडानि कांस्यानि जलप्लुतानि ।
अन्यानि शस्तानि च शीतलानि
सचन्दनार्द्रश्च करः सुशीतः ॥ २५ ॥

शीतलजलमें घुस कर स्नान करना, शीतल जलवाली नदियोंके किनारेपर बैठना, मन्द सुगन्धित शीतल पवनको सेवन करना, शीतल जलसे भरे हुए काँसी के पात्रोंको नाभिपर धारण करना तथा अन्यान्य शीतल उपचारोंको करना और चन्दन, खस आदिको जलमें पीसकर उस जलसे शरीरको सींचना यह सब पैत्तिक शूलमें हितकारी है ॥ २५ ॥

मणिराजतताम्राणि भाजनानि च
सर्वशः । परिपूर्णानि तोयेन शूल-
स्योपरि निःक्षिपेत् ॥ २६ ॥

मणि, रत्न चाँदी और ताँबा इनके पात्रोंमें शीतल जलको भर कर शूलके ऊपर धारण करे ॥ २६ ॥

विरेचनं पित्तहरं च शस्तं रसश्च
शस्तः शशलावकानाम् । संतर्पणं
लाजमधूपपत्रं योगाः सुशीता मधु-
संप्रयुक्ताः ॥ २७ ॥ शतावरी सय-
ष्ट्याहा वाड्यालकुशगोक्षुरैः । शृत-
शीतं पिबेत्तोयं सक्षौद्रगुडशर्करम् ।
पित्तासृग्दाहशूलघ्नं सद्यो दाहज्वरा-
पहम् ॥ २८ ॥

पित्तनाशक विरेचन, खरगोश और लवके
मांसका रस, खीलोको जलमें भिजोकर उसमें शहद
मिलाकर तृप्तिके लिये पान करना तथा और अन्या-
न्य शीतल योगोमें शहद मिलाकर सेवन करना ये
सब पित्तजशूलमें हितकारी हैं । शतावर, मुलैठी,
खिरैटी, कुशा और गोखरु इनका काथ बनाकर
उसमें शहद, गुड और मिश्री मिलाकर पान करनेसे
रक्तपित्त, दाह, शूल और तत्काल दाहज्वर दूर
होता है ॥ २७ ॥ २८ ॥

धात्र्या रसं विदाय्या वा त्रायन्ती
गोस्तनाम्बु वा । पिबेत्सशर्करं सद्यः
पित्तशूलनिपूदनम् ॥ २९ ॥

आमलोके रसमें, विदारिकंदके रसमें अथवा
त्रायमाणके रसमें या दात्र्योंके काथमें मिश्री मिला-
कर पीनेसे तत्काल पित्तका शूल शमन होता
है ॥ २९ ॥

त्रिफलारग्वधकाथं सक्षौद्रं शर्करा-
न्वितम् । पात्रयेद्रक्तपित्तार्तं दाहशू-
लनिवारणम् ॥ ३० ॥

त्रिफला और अमलताम इनका काथ बना-
कर शहद और मिश्री मिलाकर सेवन करनेसे रक्त-
पित्तकी पीडा, दाह और शूल नष्ट होता है ॥ ३० ॥

छर्द्यां ज्वरे पित्तभवे च शूले घोरं
विदाहे तृषितेऽतिमात्रम् । यवस्य
पेयां मधुना विमिश्रां पिबेत्सुशीतां
मनुजः सुखार्थी ॥ ३१ ॥

वमन, ज्वर, पित्तजशूल, घोरदाह और अत्यंत
तृष्णामें जौकी पेया बनाकर उसमें शहद मिलाकर
शीतल करके पान करे ॥ ३१ ॥

शतावरीरसं क्षौद्रयुक्तं प्रातः पिबे-
न्नरः । दाहशूलोपशान्त्यर्थं सर्वपि-
त्तामयापहम् ॥ ३२ ॥

शतावरके रसमें शहद मिलाकर प्रातःकाल पान
करे तो दाह और शूल तथा सर्वप्रकारके पित्तके वि-
कार शमन होते हैं ॥ ३२ ॥

वृहत्यां गोक्षुरैरण्डकुशकाशेक्षुवा-
लिकाः । पीताः पित्तभवं शूलं सद्यो
हन्युः सुदारुणम् ॥ ३३ ॥

बड़ी कटेरी, कटेरी, गोखरु, अंडकीजड, कुशा, कांस,
और ईपण तृण इनकी जड़ोंसे इनका काथ बना कर
पान करनेसे दारुण पित्तशूल शमन होता है ॥ ३३ ॥

प्रलिह्यात्पित्तशूलघ्नं धात्रीचूर्णं समा-
क्षिकम् । सगुडावृतमिश्रा वा शूलं
हन्याद्धरीतकी ॥ ३४ ॥

आमलोके चूर्णमें शहद मिलाकर सेवन कर-
नेसे पित्तका शूल शांत होता है । हरडको गुडमें
मिलाकर सेवन करनेसे शूल शमन होता है ॥ ३४ ॥

कुशादिमूलयष्ट्याहैः क्षीरमद्धोदके
शृतम् । रक्तपित्तोपशमनं वेदना चो-
पशाम्याति ॥ ३५ ॥

कुशादि तृणपंचमूल और मुलैठी इनको आधे
दूध और आधे जलमें डालकर पकावे । जब प्रकटे
पकते केवल दूध बाकी रह जाय तब इसको पीने ।
इससे रक्तपित्त और शूल शमन होता है ॥ ३५ ॥

कुशादिघृत ।

कुशादिमूलारुणपश्ववलकलं शता-
वरीकोमलकांबुसाधितम् । घृतं पय-
स्युल्वणपित्तशूलजित्तिता मधूका-
रुणकल्कसाधितम् ॥ ३६ ॥

कुशादि तृणपंचमूल, मजीठ, बड, गूलर,
पाखर, पीपल और पारिसपीपल, इन पांचों वृक्षोंकी

छाल और हरी शतावर इनका काथ बनाकर उसमें मिश्री, मुलैठी और मज्जीठका कल्क डालकर चौगुने दूधमें घृतको पकावे । यह घृत-पित्तोत्पन्नशूलको दूर करता है ॥३६॥

कफशूलनिदान ।

आनूपवारिजकिलाटपयोविकारमां-
सेक्षुपिष्टकृशरातिलशङ्कुलीभिः ।
अन्यैर्बलासजनकैरपि हेतुभिश्च श्ले-
ष्माप्रकोपमुपगम्य करोति शूलम् ॥
॥ ३७ ॥ हृत्प्रासकाससदनारुचिसं-
प्रसेकैरामाशये स्तिमितकोष्ठशिरो-
गुरुत्वैः । भुक्ते सदैव हि रुजं कुरु-
तेऽतिमात्रं सूर्योदये च शिशिरे
कुसुमागमे च ॥ ३८ ॥

आनूपदेशके जीविका मांस, जलचरजीविका मांस, किलाटे (फटे हुए दूधका मावा इत्यादि), दूधके बने हुए पदार्थ (दही, तक्र, रवडी, मलाई, इत्यादि) मांस, ईखका रस, विविधप्रकारके पिट्टीके बने हुए मिष्टान्न और पक्कान्न, खिचडी, तिल, पूरी, कचौरी, तथा अन्यान्य कफकारक पदार्थोंको भक्षण करनेसे कफ कुपित होकर शूलरोगको उत्पन्न करता है । इसमें उबकाई, खांसी, दुर्बलता, अरुचि, मुखसे पानीका गिरना, आमाशय और कोष्ठमे स्तब्ध और मस्तकमे भारीपन होता है । भोजन करते ही अत्यंत पीडा होना, तथा सूर्योदयके समय, शिशिरऋतु और वसन्तऋतुमें कफका संचय तथा वृद्धि होनेसे यह शूल अत्यंत कुपित होता है ॥ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

कफशूलकी चिकित्सा ।

संस्वेद्य कोष्णसक्षारसक्तुक्रैस्तथा-
परैः । प्रवाप्य कफशूलार्तमवश्यमुप-
वासयेत् ॥ ३९ ॥

उष्ण, क्षार, सक्तु आर तक्र तथा अन्यान्य प्रयो-
गोके द्वारा कफजशूल रोगीको स्वेदित करे, पश्चात्
लंघन करावे ॥ ३९ ॥

शाल्यन्नं जाङ्गलं मांसं सारिष्टं कटु-
कं रसम् । मद्यानि जीर्णगोधूमं कफ-
शूले प्रयोजयेत् ॥ ४० ॥

कफजनित शूलमे शालिचावलाका भात, जांगल प्रदेशके पशुपक्षियोंका मांस, अरिष्ट (औषधियोंके काथके द्वारा बनाई हुई मदिरा), तीक्ष्ण रस, जीर्ण मदिरा और गेहूँके बने हुए पदार्थ ये सब सेवन करने चाहिए ॥ ४० ॥

लवणत्रयसंयुक्तं पञ्चकोलकरामठम् ।
सुखोष्णेनाम्बुना पानं कफशूले प्र-
दापयेत् ॥ ४१ ॥

सैधानमक, विडनमक, कालानमक, पीपल, पीप-
लामूल, चव्य, चीता, सोठ और हींग इनको एकत्र पीसकर सुहाते सुहाते गरम जलके साथ पान करे तो कफशूल नष्ट होता है ॥ ४१ ॥

श्लेष्मशूलहरा पेया पञ्चकोलेन सा-
धिता ॥ ४२ ॥

पंचकोलसे साधित की पेया श्लेष्म और शूलको हरती है ॥ ४२ ॥

व्याघ्री ससिंहीफलबिल्वमूलं शि-
लोद्भवं गोक्षुरकश्च तुल्यम् । एरंड-
मूलं द्विशुणं च पक्का पिवेद्यवक्षार-
युतं कषायम् । हत्कुक्षिपार्श्वानुगतं
निहन्याच्छूलं नराणां कफजं प्रवृ-
द्धम् ॥ ४३ ॥

कटेरी, बडी कटेरी, त्रिफला, बेलकी जड, शिलाजीत और गोखरू यह सब समान भाग तथा अंडकी जड दो भाग लेवे । सबको एकत्र मिलाकर काथ बनावे । इस काथमे जवाखारका चूर्ण डाल कर पान करनेसे हृदय, कुक्षि और पार्श्वगत शूल तथा अत्यंत बढाहुआ कफशूल नष्ट होता है ॥ ४३ ॥

द्वंद्वज और त्रिदोषजशूल ।

द्विदोषलक्षणैरेतैर्विद्याच्छूलं द्विदोष-
जम् ॥ ४४ ॥ सर्वेषु दोषेषु च सर्व-
लिङ्गं विद्याद्विषकसर्वभवश्च शूलम् ।

सुकष्टमेन विषद्वज्रकल्पं विवर्जनीयं
प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ४५ ॥

जिसमें दो दोषोंके लक्षण मिलते हों उसको द्वंद्वज
अर्थात् द्विदोषज शूल जानना । जिसमें सम्पूर्ण
दोषोंके लक्षण मिलते हों उसको त्रिदोषज अर्थात्
सान्निपातिक शूल जानना । यह शूल अत्यन्त कष्ट-
दायक है तथा विष और वज्रके समान दुर्निवार है,
इस कारण यह चिकित्सा करने योग्य नहीं है ऐसा
वैद्योंने कहा है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

चिकित्सा ।

शंखचूर्णसलवणं सहिंशुव्योषसंयुतम् ।
उष्णोदकेन तत्पीतं शूलं हन्ति
त्रिदोषजम् ॥ ४६ ॥

शंखका चूर्ण, सैधानमक, हींग और त्रिकुटा इनको
एकत्र पीस कर गरम जलके साथ सेवन करनेसे
त्रिदोषज शूल नष्ट होता है ॥ ४६ ॥

गोमूत्रसिद्धं मंडूरं त्रिफलाचूर्णसंयु-
तम् । विलिहन्मधुसर्पिभ्यां शूलं ह-
न्ति त्रिदोषजम् ॥ ४७ ॥

मण्डूरको गोमूत्रमें सिद्ध करके त्रिफलेके चूर्णमें
मिला कर शहद और घीके साथ चाटनेसे त्रिदोषज-
नित शूल दूर होता है ॥ ४७ ॥

विदारीदाडिमरसः सव्योषलवणा-
न्वितः । क्षौद्रयुक्तो जयत्याशु त्रि-
दोषप्रभवां रुजम् ॥ ४८ ॥

विदारीकंद, अनारका रस, त्रिकुटेका चूर्ण और
सैधानमक इन सबको एकत्र मिलाकर शहदके साथ
चाटनेसे त्रिदोषजनित शूल दूर होता है ॥ ४८ ॥

परण्डफलमूलानि बृहतीद्वयगोक्षुर-
म् । पर्णिन्यः सहदेवी च सिंहपुच्छी-
क्षुवालिका ॥ ४९ ॥ तुल्यैरैतैः शृतं तोयं
यवक्षारयुतं पिबेत् । पृथग्दोषभवं
शूलं हन्यात्सर्वभवं तथा ॥ ५० ॥

अंडके फल, अंडकी जड़, कटेरी, बड़ी कटेरी,
गोखरू, पृथिवीपर्णी, शालपर्णी, सहदेवी, पिठवन और

इक्षुवालिका सब औषधि समान भाग लेकर काथ
बनाकर जवाखार डालकर पान करनेसे वातज शूल,
पित्तज शूल, कफज शूल और त्रिदोषज शूल नष्ट
होता है ॥ ४९ ॥ ५० ॥

अथामशूलनिदान ।

आटोपहृष्टासवमीगुरुत्वं स्तौमित्य-
मानाहकफप्रसेकैः । कफस्य लिङ्गेन
समानलिङ्गमाभेद्वं शूलमुदाहर-
न्ति ॥ ५१ ॥

जिसमें पेटमें गुड गुड शब्द, उबकाई, वमन, भारी-
पन, मंदता, आनाह और मुखसे कफका गिरना
तथा कफज शूलके समान लक्षण हों उसको आम-
शूल कहते हैं ॥ ५१ ॥

चिकित्सा ।

आमशूले क्रिया कार्या कफशूल-
विनाशिनी । सेव्यमामहरं सर्व य-
द्यदग्निविवर्द्धनम् ॥ ५२ ॥

आमशूलमें कफशूलको नष्ट करनेवाली समस्त
चिकित्सा करनी चाहिए तथा समस्त आमनाशक
और अग्निको दीपन करनेवाली औषधि सेवन करनी
चाहिए ॥ ५२ ॥

चित्रकप्रन्थिकैरण्डशुण्ठीधान्यजलैः
शृतम् । शूलानाहविबंधेषु साहिंशुवि-
डसैन्धवम् ॥ ५३ ॥

चीता, पीपलामूल, अण्डकी जड़, सोंठ और
धानियाँ इनका काथ बनाकर उसमें हींग, विडलोन
और सैधानमक डाल कर सेवन करे तो शूल, आनाह
और विबन्धरोग दूर होता है ॥ ५३ ॥

एरण्डसप्तककाथ ।

एरण्डविल्वबृहतीद्वयमातुलुङ्गपाषा-
णामित्रिकटुमूलकृतः कषायः । सक्षा-
रहिंशुलवणोरुबुतैलमिश्रः श्रोण्यंस-
भेद्द्रहदयस्तमरुक्षुपेयः ॥ ५४ ॥

अण्डकी जड़, बेलगिरी, कटेरी, बड़ी कटेरी,
विजौरा, नीबू, पाषाणभेद और त्रिकुटा इनका काथ

वना कर उसमें जवाखार, हींग, सैधानमक और अंडीका तेल डाल कर पान करनेसे कटिगत, म्कन्धगत, लिंगगत, हृदयगत, स्तनगत और ऊरुगत शूल नष्ट होता है ॥ ५४ ॥

शूलके स्थान ।

वातात्मकं वास्तिगतं वदन्ति पित्तात्मकं चापि वदन्ति नाभ्याम् । हन्नाभिकुक्षौ कफसन्निकृष्टं सर्वेषु देशेषु च सन्निपातात् ॥ ५५ ॥

वातजशूल मूत्राशयमे, पित्तजशूल नाभिमै, कफजशूल हृदय, कोख और नाभिमै और सान्निपातिक शूल सम्पूर्ण शरीरमें होता है ॥ ५५ ॥

कफवातज शूल ।

वस्तौ हृत्कण्ठपार्श्वेषु सशूलः कफवातिकः । कुक्षौ हन्नाभिमध्येषु स शूलः कफपैतिकः ॥ दाहज्वरकरो घोरो विज्ञेयो वातपैतिकः ॥ ५६ ॥ एकदोषोत्थितः साध्यः कृच्छ्रसाध्यो द्विदोषजः । सर्वदोषोत्थितो घोरस्त्वसाध्यो भूर्युपद्रवः ॥ ५७ ॥

कफवातजशूल—वस्ति, हृदय, कंठ और पसलियोंमें होता है। कफपित्तजशूल—कोख, हृदय और नाभिमैमें होता है। वातपित्तज शूल—घोर दाह ज्वरको उत्पन्न करता है। इनमें एकदोषोत्पन्न शूल साध्य है। द्विदोषोत्पन्न शूल कष्टसाध्य है। और त्रिदोषोत्पन्न तथा अधिक उपद्रवयुक्त अत्यंत दारुण शूल असाध्य है ॥ ५६ ॥ ५७ ॥

पार्श्वशूलके लक्षण ।

निगृह्य मारुतं श्लेष्मा कुक्षिपार्श्वव्यवस्थितः । साध्मानाटोपसंरुद्धः सूक्ष्मीभिरिव निस्तुदन् ॥ ५८ ॥ उच्छ्रसित्येव वक्रेण नवात्रमभिनन्दति । न च निद्रामुपेत्यैष पार्श्वशूलः प्रकीर्तितः ॥ ५९ ॥

कफ वायुको साथ लेकर कोख और पसलियोंमें व्याप्त होकर उदरमें अफारा और गुड़गुडाहट करके

सुई चुभाने सरीखी पीडाको उत्पन्न करता है। इस पार्श्वशूलमें मनुष्य मुखमें ही ऊंचा धाम लेता है, अन्नमें अरुचि हो जाती है और निद्रा भी नहीं आती है। इसको पार्श्वशूल कहते हैं ॥ ५८ ॥ ५९ ॥

कुक्षिशूलके लक्षण ।

प्रकुप्यति यदा कुक्षौ वाहिमाक्रम्य मारुतः । तदास्य भोजनं भुक्तं वातस्तब्धं न पच्यते ॥ ६० ॥ उच्छ्रसन्तिमात्रेण शूलेनाऽऽहन्यते मुहुः । शयनेनासने चैव तिष्ठन्तो लभते सुखम् ॥ कुक्षिशूल इति ख्यातो वातादामसमुद्भवात् ॥ ६१ ॥

जब वायु जठराग्निको आच्छादित करके कुक्षिमै कुपित होता है तब मुखमें दिया हुआ भोजन वातस्तम्भ होनेसे नहीं पचने देता। जब श्वासका अधिक वेग होता है तब बारबार शूलका कोप होता है। इसमें शयन करने पर और आसन पर बैठने पर सुख होता है। इसको आमवातोद्भव कुक्षिशूल कहते हैं ॥ ६० ॥ ६१ ॥

हृदयशूलके लक्षण ।

कफपित्तावरुद्धस्तु मारुतो रसमूर्च्छितः । हृदिस्थं कुरुते शूलमुच्छ्रासारोधनं परम् ॥ ६२ ॥ हृच्छूल इति स ख्यातो रसमारुतकोपतः ॥ ६३ ॥

कफ पित्तसं आच्छादित हो कर और रससे मूर्च्छित हुई वायु श्वासको रोक कर हृदयमें शूलको उत्पन्न करती है। रस और वातके प्रकोपसे उत्पन्न हुआ यह हृदयशूल नामसे कहा जाता है ॥ ६२ ॥ ६३ ॥

वस्तिशूलके लक्षण ।

सरोधात्कुपितो वायुर्वस्ति संभृत्य तिष्ठति । वस्तिवक्षणाडीषु ततः शूलोऽस्य जायते । विण्मूत्रवातसंरोधो वस्तिशूलः सासंज्ञितः ॥ ६४ ॥

मलमूत्रादिके वेगोको रोकनेसे कुपित हुई वायु मूत्राशयमें स्थित होकर भरजाती है। इससे मूत्राशय

और वंक्षण प्रदेशकी नाडियोंमें शूल होता है, मल, मूत्र और वायुका अवरोध होता है इसको वस्तिशूल कहते हैं ॥६४ ॥

मूत्रशूलके लक्षण ।

नाभ्यां वंक्षणपार्श्वेषु कुक्षौ भेदानुबन्धकः । मूत्रमावृत्य गृह्णाति मूत्रशूलः समाहतात् ॥ ६५ ॥

नाभि, वंक्षण, पार्श्व और कुक्षि इनमें लिंगके भीतर मूत्रको रोककर जो शूल होता है उसको मूत्रशूल कहते हैं, यह वातसे उत्पन्न होता है ॥ ६५ ॥

विट्शूलके लक्षण ।

वायुः प्रकुपितो यस्य रूक्षाहारस्य देहिनः । वातान् रुणाद्भि कोष्ठस्थो मन्दीकृत्य तु पावकम् ॥ ६६ ॥ शूलं संजनयच्छीघ्रं स्रोत आवृत्य मारुतः । दक्षिणं यदि वा वामं कुक्षिमादाय जायते ॥ ६७ ॥ सर्वत्र वर्धते क्षिप्रं भ्रमनिःश्वासघोषवत् । पिपासा वर्धतेऽतीव भ्रमो मूर्च्छा च जायते ॥ ६८ ॥ उच्चारितो मूत्रितश्च न शान्तिमधिगच्छति । विट्शूलमेतज्जानीयाद्भिषकपरमदारुणम् ॥ ६९ ॥

रूखे पदार्थोंको सेवन करनेवाले मनुष्योंके वायु कुपित होकर मलको रोक देती है और कोठेकी अग्निको मन्द करके तथा स्रोतोंको रोक कर शूलको उत्पन्न करती है। यह शूल दहिनी अथवा वाई कोखमें उत्पन्न होता है। यह सर्वत्र भ्रमण करता हुआ और शब्द करता हुआ बढ़ता है। इसमें तृषा अधिकतर बढ़जाती है। भ्रम और मूर्च्छादि उपद्रव भी होते हैं, मल और मूत्रके त्याग करनेपर भी शान्ति नहीं हांती। इस महादारुण रोगको विट्शूल कहते हैं ॥ ६६-६९ ॥

विट्शूलकी चिकित्सा ।

रसोनं मद्यसंभिभ्रं पिबेत्प्रातः प्रकांक्षितः । वातश्लेष्मकृतं शूलं निहन्याद्भिदीपनम् ॥ ७० ॥

लशुनको मदिसमे मिलाकर प्रातःकाल पान करनेसे वातकफजनित शूल दूर होता है और अग्नि दीपन होती है ॥ ७० ॥

क्षारोदकं पिबेत्तत्र पिप्पल्या सगुडान्वितम् । कुक्षिशूलं जयत्युग्रं ये च वातकफोद्भवाः ॥ ७१ ॥

पीपलको गुडमें मिलाकर क्षार जलके साथ पान करनेसे वातकफजनित कुक्षि शूल दूर होता है ॥ ७१ ॥

पटोलत्रिफलारिष्टैः शृतं क्षौद्रयुतं पिबेत् । पित्तश्लेष्मज्वरच्छर्दिदाहशूलोपशान्तये ॥ ७२ ॥

परवल, त्रिफला और नीम इनका क्वाथ बनाकर शहद मिलाकर पान करनेसे पित्त, कफ, ज्वर, वमन, दाह और शूल शमन होता है ॥ ७२ ॥

पित्तजे कफजे वापि या क्रिया कथिता पृथक् । एकीकृत्य प्रयुजीत तां क्रियां कफापित्तजे ॥ ७३ ॥

पित्तजशूल और कफज शूलमें जो चिकित्सा अलग अलग कही है वही क्रिया एकत्र मिलाकर कफपित्तज शूलमें प्रयोग करनी चाहिए ॥ ७३ ॥

निदाग्धिकावृहत्यौ च कुशकाशेक्षुबालिकाः । श्वदंष्ट्रैरण्डमूलानि वारिणा सह पाचयेत् ॥ पिबेत्सशर्कराक्षौद्रं शूले पित्तानिलात्मके ॥ ७४ ॥

कटेरी, बड़ी कटेरी, कुशा, काँस, इक्षुबालिका, गोखरू और अंडकी जड इनको एकत्र जलमें पका कर मिश्री और शहद मिलाकर पान करनेसे वातपित्तजशूल शमन होता है ॥ ७४ ॥

हिंवादिचूर्ण ।

हिंगुसौवर्चलं पथ्या विडसैन्धवतुम्बुरु । पौष्करश्च पिबेच्चूर्णं दशमूलीयवाग्भसा ॥ ७५ ॥ पार्श्वहृत्कटिपृष्ठानां शूले तन्द्रापतानके । श्लेष्मणोत्थे प्रसेके च गलरोगे च शस्यते ॥ ७६ ॥

हींग, काला नमक, हरड, विरियासचर नमक, सैधानमक, तुम्बुरु और पोहकरमूल इनको एकत्र पीसकर चूर्ण करके दशमूलके काथके साथ या जौके काथके साथ पान करनेसे पार्श्वशूल, हृदयशूल, कटिशूल, पृष्ठशूल, तन्द्रा, अपतानक, कफजनित प्रसेक और गलरागा ये सब दूर होते हैं ॥ ७५ ॥ ७६ ॥

बृहत्तुम्बुर्वादिचूर्ण ।

तुम्बुरुण्यभयाहिंशु पौष्करं लवण-
त्रयम् ॥ यवानी च यवक्षारं विडङ्गं
नागरं वचा ॥ ७७ ॥ त्रिवृत्रिगुणितं
चूर्णं रुबुतैलसमान्वितम् ॥ ७८ ॥
उष्णांबुना च तत्पेयं गुल्मे वातक-
फात्मके ॥ ७९ ॥ उदरेषु विबन्धे च
वातविण्मृत्रेणतसाम् ॥ ८० ॥

तुम्बुरु, हरड, हींग, पोहकरमूल, सैधानमक, कालानमक, विडनोन, अजवायन, जवाखार, वाय-
विडंग, सोठ और वच ये सब समान भाग और
निसोत तीन भाग लेवे, सबको एकत्र पीसकर वारीक
चूर्ण बनालेवे इस चूर्णमें अंडीका तेल डालकर गरम
जलके साथ पान करनेसे वातकफजनित गुल्म,
उदररोग और वात, मल, मूत्र तथा वीर्यबन्ध दूर
होता है ॥ ७७-८० ॥

तुम्बुर्वादिचूर्ण ।

तुम्बुरुण्यभयाहिंशु पौष्करं लवण-
त्रयम् । पिवेद्यवांबुना वातगुल्मशू-
लापतन्त्रकी ॥ ८१ ॥

तुम्बुरु, हरड, हींग, पोहकरमूल और तीनों लवण
इनका एकत्र पीसकर चूर्ण करके जौके काथके साथ
पान करनेसे वात, गुल्म, शूल और अपतंत्ररोग दूर
होता है ॥ ८१ ॥

विश्वादिचूर्ण ।

विश्वोरुबूकदशमूलयवाम्भसा च
द्विक्षारहिंशुलवणत्रयपुष्कराणाम् ।
चूर्णं पिवेद्धृदयपृष्ठकटिग्रहामपकाश-
यात्तिभृशरुग्ज्वरगुल्मशूली ॥ ८२ ॥

सोठ, अंडकी जड, दशमूल और जौके काथमें
जवाखार, सर्जी, हींग, तीनों लवण और पोहकरमूल
इनका चूर्ण डालकर पान करनेमें हृदयशूल, पृष्ठशूल
कटिशूल, आमशूल, पकाशयकी पीडा, ज्वर, गुल्म
और सर्वप्रकारक शूल नष्ट होते हैं ॥ ८२ ॥

रुचकादिचूर्ण ।

चूर्णं समं रुचकहिंशुमहौषधानां शु-
ण्वांबुना कफसमीरणसम्भवासु । ह-
त्पार्श्वपृष्ठजठरार्तिविपूचिकासु पेयं
तथा यवरसेन च विड्विविबन्धे ॥ ८३ ॥

कालानमक, हींग और सोठ इनका चूर्ण करके
कफ और वातजनितशूलमें पान करना चाहिए । और
इस चूर्णको हृदयशूल, पार्श्वशूल, पृष्ठशूल, उदररोग,
विपूचिका और मलविबन्धरोगमें जौके काथके साथ
पान करना चाहिए ॥ ८३ ॥

काथेन चूर्णपानञ्च तत्र काथप्रधान-
ता । प्रवर्तते न तेनायं चूर्णापेक्षाञ्च-
तुर्गुणः ॥ ८४ ॥ हिंशुनः स्वल्पमानो-
क्ते समशब्दे सहार्थता ॥ ८५ ॥

जहां काथके साथ चूर्णको पान करना कहा है
वहां काथ प्रधान समझना चाहिए और वहां चूर्णसे
काथ चौगुना लेना चाहिए । हींग, परिमाणके
अनुसार लेनी चाहिए । सब औषधियोंको समान
नहीं लेनी चाहिये, क्योंकि यहां सम शब्द समानवा-
चक नहीं समझना चाहिए ॥ ८४ ॥ ८५ ॥

त्रिफलाकाथगोमूत्रक्षौद्रक्षरिरसैः प्र-
थक् । एरंडतैलद्विगुणैर्हितं शान्त्यै
विरेचनम् ॥ ८६ ॥

त्रिफलेके काथमें गोमूत्र, शहद, दूध और दुगुना
अंडीका तेल डालकर पान करनेसे अच्छे प्रकारसे
विरेचन होजाती है और शूल शमन होता है ॥ ८६ ॥

हिंशु तैलं सलवणं गोमूत्रेण विपाचि-
तम् । नाभिस्थाने प्रदातव्यं यस्य
शूलं सवेदनम् ॥ ८७ ॥

हींग, तेल और नमक इनको गोमूत्रमें पकाकर
नाभिस्थान पर प्रलेप करनेसे घोर पीडायुक्त शूल शांत
होता है ॥ ८७ ॥

दाहहैमवतीकुष्ठशताह्वहिंशुसैन्ध-
वैः । अम्लपिष्टैः सुखोष्णैश्च शूलात्त-
मुदरं दिहेत ॥ ८८ ॥

देवदारु, चौक, क्रूठे, सांया, हींग और सैधानमक इन सबको एकत्र कांजीमें पीसकर सुहाता २ पेटपर लेप करनेसे शूलकी वेदना शांत होती है ॥ ८८ ॥

पुनर्नवादिस्वेद ।

पुनर्नवरंडयवातसीभिः कार्पासजैर-
स्थिभिरारनालैः । स्वित्रैरमीभिर्भिष-
जा च कार्य्यः स्वेदः समीरार्तिहरो
नराणाम् ॥ ८९ ॥

पुनर्नवा, अडकी जड, जौ, अलसी, कपासके बीज (चिनाँले) और कांजी इनको एकत्र पीसकर इसके द्वारा स्वेद देनेसे वातकी वेदना शमन होती है ॥ ८९ ॥

तैलमैरंडजं वापि दशमूलस्य वारि-
णा । पीतं निहन्ति साटोपं हिंशुसौ-
वर्चलान्वितम् ॥ ९० ॥

अडीके तेलको दशमूलके जलमें मिलाकर हींग और काले नमकके चूर्णके साथ पान करनेसे गडगडा-हट और शूल दूर होता है ॥ ९० ॥

पथ्यां सशक्रयवपुष्करमूलयुक्तां नि-
ष्काथ्य हिंशुजटिलातिविषासुयुक्ता-
म् । पीत्वा सुखोष्णमथ वातकृतञ्च
शूलमामोद्धवं कफकृतञ्च निहन्ति
तूर्णम् ॥ ९१ ॥

हरड, इन्द्रजौ और पोहकरमूल इनका काथ बना कर इसमें हींग, पीपल और अतीसका चूर्ण डालकर सुहाता सुहाता पान करनेसे वातजशूल, आमशूल, और कफजनितशूल दूर होता है ॥ ९१ ॥

मातुलुङ्गरसो वापि शिशुकाथस्त-
थाऽपरः । सक्षारो मधुना पीतः पा-
श्वहृद्वस्तिशूलनुत् ॥ ९२ ॥

विजैरे नीबूके रसको अथवा सहिंजनेके काथको जवाखार और शहद डालकर पान करनेसे पार्श्वशूल, हृदयशूल और वस्तिशूल नष्ट होते हैं ॥ ९२ ॥

मातुलुङ्गरसः सर्पिः सहिंशुलवणा-
न्वितम् । सुखोष्णं पाययेदेतद्विद्वि-
बन्धानुलोमनम् ॥ ९३ ॥ कुक्षिहृत्पा-
श्वशूलेषु वेदना चोपशाम्यति ॥ ९४ ॥

विजैरेनीबूका रस, घी, हींग और सैधानमक इन सबको एकत्र मिलाकर सुहाता सुहाता पान करनेसे मलविबन्धका अनुलोमन होता है तथा कुक्षिशूल हृदयशूल और पार्श्वशूल इनकी पीडा शमन होती है ॥ ९३ ॥ ९४ ॥

पिप्पली पिप्पलीमूलं चव्यचित्रक-
नागरैः । यवागूर्दीपनीया स्याच्छू-
लग्नी चोपसाधिता ॥ ९५ ॥

पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता और सोठ इनके द्वारा बनाई हुई यवागू अग्निको दीपन करती है और शूलको शमन करती है ॥ ९५ ॥

सहिंशुतुम्बुरुव्योषयवानीचित्रकाभ-
याः । सक्षारलवणाश्चूर्णं पिबेत्प्रातः
सुखांबुना । विण्मूत्रानिलशूलघ्नं पा-
चनं वह्निदीपनम् ॥ ९६ ॥

हींग, तुम्बुरु, त्रिकुटा, अजवायन, चीता, हरड, जवाखार और सैधानमक इन सबका एकत्र चूर्ण करके प्रातःकाल सुखोष्णजलके साथ पान करनेसे मल, मूत्र और वातका शूल शमन होता है, पाचन और अग्नि दीपन होती है ॥ ९६ ॥

बिल्वमूलमथैरंडचित्रकं विश्वभेषज-
म् । हिंशुसैन्धवसंयुक्तं सद्यः शूलनि-
वारणम् ॥ ९७ ॥

बेलकी जड, अण्डकी जड, चीता, सोठ, हींग और सैधानमक इन सब औषधियोंको समान भाग लेकर कूट पीसकर चूर्ण करलेवे इस चूर्णको सेवन करनेसे तत्काल शूल नष्ट होता है ॥ ९७ ॥

मूत्रान्त्रः पाचितां शुष्कां लोहचूर्ण-
समन्विताम् । सगुडामभयामद्यात्स-
र्वशूलप्रशान्तये ॥ ९८ ॥

हरडोंको गोमूत्रमे पकाकर सुखालेवे, फिर उसमे लोहेका चूर्ण, और गुड मिलाकर सेवन करे तो सर्वप्रकारके शूल नष्ट होते है ॥ ९८ ॥

**त्रिफलायास्तथा चूर्णं चूर्णं वा काल-
लोहजम् । शर्कराचूर्णसंयुक्तं सर्वशूले
निवारणम् ॥ ९९ ॥**

त्रिफलेका चूर्ण अथवा काले लोहेके चूर्णमे मिश्री-
का चूर्ण मिलाकर सेवन करनेसे सर्वप्रकारका शूल
नष्ट होता है ॥ ९९ ॥

**कम्बलावृतदेहस्य प्राणायामं प्रकु-
र्वतः । कटुतेलाक्तसत्तूनां धूपं शूल-
निवारणम् ॥ १०० ॥**

कम्बलको उडाकर और प्राणायाम क्रियाको
कराकर सत्तुओंको कडेवे तेलमे मिलाकर धूप देवे
तो तत्काल शूल नष्ट होता है ॥ १०० ॥

**हिंगु त्रिकटुकं कुष्ठं यवक्षारोऽथ सै-
न्धवम् । मातुलुङ्गरसोपेतं प्लीहशूला-
पहं रजः ॥ १०१ ॥**

हींग, त्रिकुटा, कूठ, जवाखार और सैन्धेनमकको
एकत्र पीसकर विजैरे नींबूके रसमे मिलाकर सेवन
करनेसे प्लीहा और शूल नष्ट होता है ॥ १०१ ॥

**वाते निरूहाः सविरेच्यनाश्च क्षीर-
प्रयोगा मधुराश्च पित्ते । तिक्तः कषायः
कटुकस्तथैव कफेन शूले खलु सन्नि-
विष्टे ॥**

वातजशूलमे निरूहवस्ति और विरेचन, पित्तज-
शूलमे दूधका प्रयोग, मधुर पदार्थ और फफजशूलमे
तिक्त और कटु औषधियोंका काथ, प्रयोग करना
चाहिये ॥

हिंवादिवटक ।

**हिंगुसौवर्चलं पाठा द्वौ क्षारौ लव-
णत्रयम् । चूर्णीकृत्य विधातव्यं भि-
पजा लशुने रसे ॥ १०२ ॥ हृच्छूले
पार्श्वशूले च मन्यास्तम्भे सुदारुणे ।**

**प्रयोज्यं कुक्षिशूले च भिषजा सिद्धि-
मिच्छता ॥ १०३ ॥**

हींग, काला नमक, पाठ, जवाखार, मर्जी,
सैधानमक, कालानमक और विरियासंचरनमक इन
सबका एकत्र चूर्ण करके लशुनके रसमे मिला कर
बडे बनावे । इन बडोंको सेवन करनेसे हृदयशूल,
पार्श्वशूल, दारुण मन्यास्तम्भ और कुक्षिशूल नष्ट होता
है ॥ १०२ ॥ १०३ ॥

एरण्डाद्यघृत ।

**एण्डमूलं बृहती श्वदंष्ट्रा पुनर्नवा गो-
क्षुरुकस्य मूलम् । शतावरीहंसपदी
बला च महासहाक्षुद्रसहाविदारी ॥
॥ १०४ ॥ विल्वस्य मूलं समृणाल-
चित्रं निदग्धिकाजीवककर्षभौ च ।
कुशे कुशाख्या सहदेवदेवे पचेत्क-
षायं जलपादशेषम् ॥ १०५ ॥ काथेन
कल्केन पचेत्तु धीमान्रसेन तुल्यं फल-
पूरकस्य ॥ १०६ ॥ उत्कृष्टदोषो यस्य
स्याद्यस्य शूलो न शाम्यति । तत्र
सर्पिरिदं दद्यात्प्रसह्य विनिवारणम् ॥
॥ १०७ ॥ सर्वस्थानगतं शूलमेतद्ध-
न्ति चतुर्विधम् । एण्डाद्यमिदं सर्पिः
कृष्णात्रेयेण पूजितम् ॥ १०८ ॥**

अण्डकी जड, बडी कटेरी, गोखरु, पुनर्नवा,
गोखरुकी जड, शतावर, हंसपदी, विरैटी, माष-
पर्णी, मुद्गपर्णी, विदारीकद, बेलकी जड, कमलकी
नाल, चीता, कटेरी, जीवक, ऋषभक, सरपता,
कुशा, सहदेवी और देवदारु, इन सब औषधियोंके
कल्क और इन ही औषधियोंके चतुर्थांश शेष काथमें
बराबरके विजैरेनींबूके रसके द्वारा घृतको सिद्ध
करे । जिन मनुष्योंके दोष अधिक बडे हुए है और
जिनके शूल किसी औषधिसे भी शमन नहीं होता
उनको यह घृत सेवन करना चाहिये । यह तत्काल
पीडाको दूर कर देता है । यह घृत-शरीरके सम्पूर्ण
स्थानोंमे उत्पन्न हुए चारो प्रकारके शूलोंको दूर
करता है । यह एरण्डाद्यघृत कृष्णात्रेय करके पूजित
है ॥ १०४-१०८ ॥

बीजपूरादिघृत ।

बीजपूरकमैरंडं गन्ना गोक्षुरकं बला ।
पृथक्पञ्चपलान्भागान्यवप्रस्थसमायु-
तान् ॥ १०९ ॥ वारिद्रोणेन साध्यं
स्याद्यावत्पादावशोषितम् । घृतप्रस्थं
पचेत्तेन कल्कं दत्त्वाक्षसंमितम् ११० ॥
तुम्बुरुण्यभया हिंशु व्योषं सौवर्चलं
विडम् । सन्धवं यावशुकञ्च स्वर्जि-
का साम्लवेतसम् ॥ १११ ॥ मस्तुप्र-
स्थद्वयं दद्यात्सिद्धं मृद्गग्निना भिषक्
पानमेतत्प्रशंसन्ति शूलं हन्ति त्रि-
दोषजम् ॥ ११२ ॥ वातशूलं यकृ-
च्छूलं गुल्मप्लीहापहं परम् । हृच्छूलं
पार्श्वशूलञ्च अन्त्रशूलञ्च यद्भवेत् ११३ ॥
बलवर्णकरं हृद्यमग्निसन्दीपनं परम् ।
याज्ञवल्क्येन मुनिना भाषितं तत्त्व-
दर्शिना ॥ ११४ ॥

विजौरानीवृ, अण्डकी जड, रायसन, गोएरू, खिरँटी
ये प्रत्येक औषधि पांच पांच पल, जी एक प्रस्थ, इन
सबको एक द्रोण जलमें पकावे । जब पकेते २ जल
चाँथाई भाग बाकी रहजाय तब उतार कर छानलेवे,
फिर इस काथमे तुम्बुरु, हरड, हींग, त्रिकुटा, काला
नमक, विरियासचरनमक, संधानमक, जवाखार,
सर्जी और अमलवत इन प्रत्येक औषधिका कल्क दो
दो तोले डाले और दहीका तोडे दो प्रस्थ लेवे, सबको
मिलाकर यथाविधिसे एक प्रस्थ घृतको पकावे । इस
घृतको पान करनेसे त्रिदोषजनित शूल दूर होता है तथा
वातशूल, यकृतशूल, गुल्म और प्लीहादि रोग, हृदयशूल
पार्श्वशूल और अन्त्रशूल नष्ट होता है । बल और
वर्णकी वृद्धि होती है, हृदयको हितकारी और अग्नि-
को दीपन करता है । यह बीजपूरादिघृत, महासुनि तत्त्व-
दर्शी याज्ञवल्क्यजीका कहाहुआ है ॥ १०९-११४ ॥

शूलघृत ।

घृताच्चतुर्गुणो देयो मातुलङ्गरसो यदि ।
शुष्कमूलककोलाम्लकषायो दाडि-

माद्रसः ॥ ११५ ॥ विडङ्गलवण-
क्षारं पञ्चकोलयवानिभिः । पाठामू-
लककल्कैश्च सिद्धं शूलं मतं घृतम् ॥
॥ ११६ ॥ हृत्पार्श्वशूलं वै श्वासं कासं
हिक्कां तथैव च । ब्रध्मगुल्मप्रमेहार्शो-
वातव्याधिं विनाशयेत् ॥ ११७ ॥

घो १ प्रस्थ, विजौरै नीवूका रस ४ प्रस्थ, मूखी मूली
और खेट्टे वेर इनका काथ ४ प्रस्थ, अनारका रस
४ प्रस्थ, कल्कके लिये वायविडंग, सैधानमक, जवा-
खार, पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, सोंठ, अज-
वायन और पाठकी जड ये प्रत्येक औषधि एक २
तोला लेवे, सबको विधिपूर्वक मिलाकर घृतको पकावे।
यह घृत-हृदयशूल, पार्श्वशूल, श्वास, सोंसी, हिचकी,
ब्र-म, गुल्म, प्रमेह, जवासीर और सर्व प्रकारके
वातविकारोंको नष्ट करता है ॥ ११५ ॥ ११६ ॥
॥ ११७ ॥

यस्य नैवं प्रशाम्येत तस्य बस्तिवि-
धिर्मतः । नारायणेन तैलेन प्रसारिण्या
तथैव च ॥ ११८ ॥

इसप्रकार चिकित्सा करनेपर जो शूल शांत नहीं
हो तो उसके बस्ति प्रयोग करनी चाहिये । अथवा
नारायणतैल तथा प्रसारिणीतैल प्रयोग करना
चाहिये ॥ ११८ ॥

शूलके उपद्रव ।

वेदना च तृषा मूर्च्छा आनाहो गौर-
वारुची । कासश्वासौ च हिक्का च
शूलस्योपद्रवाः स्मृताः ॥ ११९ ॥

वेदना, तृषा, मूर्च्छा, अफारा, भारीपन, अरुचि,
खाँसी, श्वास और हिक्का ये दश शूलके उपद्रव है
॥ ११९ ॥

अपथ्य ।

व्यायामं मैथुनं मद्यं लवणं कटकानि
च । वेगरोधं शुचं क्रोधं वर्जयेच्छू-
लवान्नरः ॥ १२० ॥

व्यायाम (दड कसरत), मैथुन (स्त्रीप्रसंग), मद्यपान, लवणरस, कटुरसवाले पदार्थ, मलमूत्रादिके वेगोंका अवरोध, शोक और क्रोध ये सब शूलवाला रोगी त्याग देवे ॥ १२० ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां
शूलाधिकार संपूर्ण ॥ २८ ॥

अथ परिणामशूलनिदानम् ।

— ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ —

स्वैर्निदानैः प्रकुपितो वायुः सन्निहित-
तस्तदा । कफपित्ते समावृत्त्य शूल-
कारी भवेद्बली ॥ १ ॥ भुक्ते जीर्यति
यच्छूलं तदेव परिणामजम् । तस्य
लक्षणमप्येतत्समासेन विधीयते ॥२॥

वायुको बढ़ानेवाले और कुपित करनेवाले जो रुक्षादि कारण उनसे वायु दूषित होकर कफ पित्तके समीप जाकर उनका आवृत कर बलवान् होकर शूलको उत्पन्न करती है और वह शूल भोजनके पचनेके समय होता है । इस कारण इसको परिणाम-शूल कहते हैं । उसके लक्षण अब संक्षेपसे कहता हूँ ॥ १ ॥ २ ॥

वातजपरिणामशूल ।

आध्मानाटोपविण्मूत्रविबन्धारति-
वेपनैः । स्निग्धोष्णैः प्रशमं याति
वातिकं तद्देद्भिषक् ॥ ३ ॥

वातिक परिणामशूलमे—अफारा, पेटमे गुडगुडा-हट, मलमूत्रका रुकना, वैचैनी और कम्प यह सब लक्षण होते हैं । यह शूल स्निग्ध और उष्ण द्रव्योंसे शांत होता है ॥ ३ ॥

पित्तजपरिणामशूलके लक्षण ।

तृष्णादाहारतिस्वेदं कट्टाम्ललवणो-
त्तरम् । शूलं शीतशमप्रायं पैत्तिकं
तद्देद्भिषक् ॥ ४ ॥

जिसमे—तृषा, दाह वैचैनी और पसीना ये सब लक्षण हो तथा जो चरपरे, खट्टे और नमकीन द्रव्योंके सेवन करनेसे वृद्धिको प्राप्त हो और प्रायः जीतल पदार्थोंके सेवन करनेसे शांत हो उसको पित्तजन्यपरिणामशूल जानना चाहिये ॥ ४ ॥

श्लैष्मिकपरिणामशूलके लक्षण ।

छर्दिहृल्लाससंमोहस्वल्परुग्दीर्घसन्त-
तिः । कटुतिक्तोपशान्तौ च तद्वि-
ज्ञेयं कफात्मकम् ॥ ५ ॥

इसमें वमन, उबकाई और इन्द्रिय तथा मनमें मोह ये सब लक्षण हो, पीडा कम हो और बहुत दिनोंतक रहे एवं जो चरपरे और कट्टे पदार्थोंके सेवन करनेसे शांत हो उसको कफजपरिणामशूल जानना चाहिये ॥ ५ ॥

द्विदोषज और त्रिदोषजपरिणाम- शूलके लक्षण ।

संसृष्टलक्षणं बुद्ध्या द्विदोषं परिकल्प-
येत् । त्रिदोषजमसाध्यं स्यात्क्षीण-
मांसबलानलम् ॥ ६ ॥

जिसमे दो दोषोंके लक्षण मिलते हों उसको द्वन्द्व-ज जानना और जिसमे तीनो दोषोंके लक्षण मिलते हो उसको त्रिदोषज जानना । यह त्रिदोषज परिणाम शूल असाध्य है—अथवा जिसमे मांस बल और अग्नि क्षीण होगये हो वह परिणामशूल असाध्य है ॥ ६ ॥

अथ चिकित्सा ।

लङ्घनं प्रथमं कुर्याद्द्विमानं सविरेच-
नम् । वस्तिकर्म परं चात्र पक्तिशू-
लोपशान्तये ॥ ७ ॥

परिणामशूलमे—प्रथम लघन पश्चात् वमन और विरेचन करावे । तत्पश्चात् वस्तिकर्मप्रयोग करे ॥ ७ ॥

निरूहो वाजिगन्धा च मधुतैलिक-
वस्तयः । निम्बकाथेन वमनं कटु
तुम्बीरसेन वा ॥ ८ ॥ पटोलपत्रका-
थेन कारवेल्लोदकेन वा । प्रियंगुपत्र-
काथेन हितं मोचरसेन वा ॥ ९ ॥

यष्ट्याद्वादिकयोगेन वमनं परिश-
स्यते । पीत्वा च क्षीरमाकण्ठं मदन-
काथसंयुतम् ॥ १० ॥ कान्तारकस्य
पौण्ड्रस्य कौशकारस्य वा रसम् ।
परिणामशूलशान्त्यर्थं वमनाय प्रयो-
जयेत् ॥ ११ ॥

प्रथम निरूहवस्ति देवे, फिर असगन्धका काथ
और शहदको तेलमें मिलाकर वस्ति देवे । नीमके
काथके द्वारा वमन करावे अथवा कडवी तोम्बकके
रसके द्वारा वमन करावे । किम्बा कड़वे परवलके
पत्तोंके काथके द्वारा, करंलेके पत्तोंके काथ द्वारा अथवा
फूल त्रियंगुके पत्तोंके काथ द्वारा अथवा मोचरसके
द्वारा या मुलैठी आदिके काथके द्वारा वमन करावे ।
मैतफलका काथ बनाकर उसमें दूध मिलाकर कंठ-
पर्यंत पिलावे—अथवा काली ईपके रसको अथवा
पौण्ड्रक नामवाली ईपके रसको या सफेद ईखके
रसको पिलाकर वमन करा देवे । इससे परिणामशूल
शमन होता है ॥ ८-११ ॥

दन्ती च त्रिवृता श्यामा कर्णिका
कटुकाह्वया । नीलिकानागरं चूर्णं
तैलेनैरण्डजेन वा ॥ युक्तं विरेचनं
सद्यः पक्तिशूलनिवारणम् ॥ १२ ॥

दंती, निसोत, अतन्तमूल, अमलतास, कुटकी,
नील, और सोंठ इनका चूर्ण बनाकर अंडीके तेलमें
मिलाकर युक्तिपूर्वक विरेचन देवे । इससे परिणाम-
शूल तत्काल नष्ट होजाता है ॥ १२ ॥

विडंगाद्यमोदक ।

विडङ्गतंडुलं व्योषं बृहदन्ती सचि-
त्रकम् । सर्वाण्येतानि चाहत्य श्लक्ष्ण-
चूर्णानि कारयेत् ॥ १३ ॥ गुडेन मो-
दकं कृत्वा भक्षयेत्प्रातरुत्थितः । उ-
ष्णोदकानुपानं च दद्यादग्निविव-
र्धनम् । जयेत्त्रिदोषजं शूलं परि-
णामसमुद्भवम् ॥ १४ ॥

वायविडगके चावल, त्रिकुटा, बडी दंती और
चीता—ये प्रत्येक औषधि समान भाग लेकर बारीक

चूर्ण कर लेवे । पश्चात् इसमें बराबर भाग गुड
मिलाकर एक एक तोलेके मोदक बनावे । प्रतिदिन
प्रातःकाल उठकर एक २ मोदक खाये । ऊपरसे
गरम जलका पान करे । इससे अग्निकी वृद्धि
होती है और त्रिदोषजनित परिणामशूल नष्ट
होता है ॥ १३ ॥ १४ ॥

नागरगुडतिलकल्कं पयसा संसाध्य
यः पुमानद्यात् । उग्रं परिणतिशूलं
नश्यति तस्य त्रिरात्रेण ॥ १५ ॥

सोंठ, गुड और तिलोका कल्क—इनको दूधमें
पकाकर सेवन करनेसे तीनादिनमें घोर परिणामशूल
नष्ट होता है ॥ १५ ॥

एरण्डवह्निशंबूकवर्षाभूगोक्षुरं सम-
म् । अन्तर्दग्ध्वा पिबेदद्विरुष्णाभिः
शूलशान्तये ॥ १६ ॥

अंडकी जड़, चीता, घोंघा, पुनर्नवा और गोखुरू
इन सबको समान भाग लेकर शराव सम्पुटमें रख
भस्म कर लेवे । इस भस्मको गरम जलके साथ
पान करनेसे परिणामशूल शांत होता है ॥ १६ ॥

शंबूकजं भस्म पीतं जलेनोष्णेन त-
त्क्षणात् । पक्तिजं विनिहन्त्येतच्छूलं
विष्णुरिवासुरान् ॥ १७ ॥

घोंघेकी भस्मको गरम जलके साथ पान करनेसे
परिणामशूल तत्काल नष्ट होता है । जिसप्रकार विष्णु
भगवान्से असुरोंके समूह नष्ट होते हैं ॥ १७ ॥

शंबूकं त्र्यूषणश्चैव पञ्च वै लवणानि
च । समांशैर्गुटिकां कृत्वा कलम्बूक-
रसेन वा ॥ १८ ॥ प्रातर्भोजनकाले
वा भक्षयेच्च यथाबलम् । शूलाद्विसु-
च्यंते जन्तुः सहसा परिणामजात् १९ ॥

घोंघेकी भस्म, सोंठ, मिरच, पीपल और पांचो
नमक—प्रत्येक औषधि समानभाग लेकर कूट पीस-
कर कलमीशोरेके रसमें गोलियां बनालेवे । इन
गोलियोंको प्रातःकाल या भोजनके समय बलानुसार
सेवन करे तो इससे तत्काल परिणामशूल शांत होता
है ॥ १८ ॥ १९ ॥

विष्णुकान्तामूलकल्कः पीतः सघृत-
शर्करः । पयसा शमयत्याशु शूलं
पक्तिसमुद्भवम् ॥ २० ॥

विष्णुकान्ता (नीली कोयल) की जड़का कल्क बनाकर घी और खांड मिलाकर दूधके साथ पान करनेसे परिणामशूल नष्ट होता है ॥ २० ॥

यः पिबति सप्तरात्रं सकूनेकान्कला-
ययूषेण । जयति परिणामशूलं शम-
येत्तज्जलं वा प्रयोजितम् ॥ २१ ॥

इकले सत्तुओको मटरके यूपके साथ सात दिनतक सेवन करनेसे परिणामशूल दूर होता है अथवा मटरके काथको सेवन करनेसे भी परिणामशूल दूर होता है ॥ २१ ॥

शम्बूकादिमोदक ।

पलानि त्रीणि शंबूकाल्लोहचूर्णात्पल-
द्वयम् । रसाजनात्पलश्वैकं लोहसिं-
घातकात्पलम् ॥ २२ ॥ सर्वैः समं
शर्करा च अधुना च परिप्लुतम् । सर्व-
मेतत्समाहृत्य मोदकान्कारयोद्विष-
क ॥ २३ ॥ तान्भक्षयेच्च यत्नेन शूले
गुल्मे हृदामये । विशेषतः पक्तिशू-
ले शोथे पांडुगदे भ्रमे ॥ २४ ॥ दुर्ना-
म्नि कासे कृच्छ्रे च प्रमेहाश्रमरिवृद्धि-
षु । अग्निमांघे स्मृतिभ्रंशे पीनसेऽर्धा-
वभेदके ॥ २५ ॥

घोषेकी भस्म १२ तोले, लोहेका चूर्ण ८ बोले, रसात ४ तोले, लोहेका मैल ४ तोले और सबके समान मिश्री लेवे सबको एकत्र पीसकर शहदमे मिलाकर लड्डू बनालेवे । इन लड्डूओको यत्नपूर्वक सेवन करनेसे शूल, गुल्म, हृदयरोग, विशेष करके परिणामशूल, सूजन, पाण्डुरोग, भ्रम, ववासीर, खांसी, मूत्रकृच्छ्र, प्रमेह, अग्मरी, अन्नत्रुद्धि, मंदाग्नि, स्मृतिभ्रंश, पीनस और अर्द्धावभेदक ये सब रोग दूर होते हैं ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥

कृष्णाभया लोहचूर्णं विलिहन्मधु-

सर्पिषा । परिणामोद्भवं शूलं सद्यो
हन्ति सुदुस्तरम् ॥ २६ ॥

पपिल, हरद और लोहेका चूर्ण इनको एकत्र शहद और घीमें मिलाकर चाटनेसे तत्काल परिणामशूल दूर होता है ॥ २६ ॥

पथ्या लोहरजः शुण्ठी तच्चूर्णं मधुस-
र्पिषा । परिणामभवं हन्ति वातपित्त-
कफात्मकम् ॥ २७ ॥

हरद, लोहेका चूर्ण और साँठ इनको शहद और घीमें मिलाकर सेवन करनेसे वात-पित्त-कफजनित परिणामशूल दूर होता है ॥ २७ ॥

त्रिफलादिलोह ।

त्रिफलां लोहचूर्णन्तु यष्टीमधुकमेव
च । मधुसर्पियुतं लिह्याच्छूलं हन्ति
त्रिदोषजम् ॥ २८ ॥

त्रिफला, लोहेका चूर्ण और मुलैठी इनको एकत्र पीसकर शहद और घीमें मिलाकर सेवन करनेसे त्रिदोषजनित शूल दूर होता है ॥ २८ ॥

चतुःसमलेह ।

अन्नं ताम्रं रसं लोहं प्रत्येकं संस्कृतं
पलम् । सर्वमेतत्समाहृत्य गृहीयात्कु-
शलो भिषक ॥ २९ ॥ आज्ये पल-
द्वादशके दुग्धे वत्सरसंख्यके । क्षि-
प्त्वा तत्र पचेच्चूर्णं सुपूतं घनतन्तुना ॥
३० ॥ विडङ्गं त्रिफलावह्वीन् त्रि-
कटुन्वा तथैव च । पिष्ट्वा पलोन्मि-
तानितान्यथा संमिश्रितान्नयेत् ॥ ३१ ॥
ततः पिष्ट्वा शुभे भांडे स्थापयेत्तु वि-
चक्षणः । आत्मनः शोभने चाह्नि
पूजयित्वा रविं गुरुम् ॥ ३२ ॥ घृते-
न मधुनालोड्य भक्षयेन्माषकादिक-
म् । अष्टौ माषान्क्रमणेव वर्धयेत्तु
समाहितः ॥ ३३ ॥ अलुपानश्च
दुग्धेन नारिकेलोदकेन च । जीर्णं

शर्करशाल्यत्रं मुद्गमांसरसादयः ॥
॥ ३४ ॥ रसायनाविरुद्धानि ह्य-
न्यान्यपि च कारयेत् ॥ ३५ ॥ ह-
च्छूलं पार्श्वशूलञ्च आमवातं कटि-
ग्रहम् । गुल्मशूलं प्लीहशूलं यकृच्छूलं
विशेषतः ॥ ३६ ॥ अग्निमान्द्यं क्षयं
कुष्ठं कासं श्वासं विचर्चिकाम् । अ-
श्वरीं मूत्रकृच्छ्रञ्च योगेनानेन न-
श्यति ॥ ३७ ॥

अभ्रककी भस्म, ताँबेकी भस्म, शुद्ध पारा और
शुद्धलोहेकी भस्म-प्रत्येक चार चार तोले इन सबको
एकत्र पीसकर ४८ तोले घी और ४८ तोले दूधमें
डालकर पकावे जब पकते पकते गाढा होजाय तब
इसमें वायविडंग, त्रिफला, चीता और त्रिकुटा ये
प्रत्येक औषधि चार २ तोले लेकर चूर्ण बनाकर वक्षमें
छान कर मिलादेवे । जब सिद्ध होजाय तब एक
उत्तम चिकने वासनमें भरकर रखदेवे । शुभदिनमें
सूर्य, चन्द्रमा आदि देवता और गुरुदेवका पूजन
करके इस औषधिको घी और गृहदमे मिलाकर एक
माशा प्रमाण भक्षण करे । फिर क्रमक्रममें एक माशे-
से बढ़ाकर प्रतिदिन आठ माशे पर्यन्त सेवन करे ।
अनुपान-दूध और नारियलका जल । जब औषधि
जीर्ण होजाय तब शालिचावलोंके भातको खांडके
साथ भक्षण करे तथा मूंगका घूप और मासरसादि-
कोंको भक्षण करे । इसपर रसायनके विरुद्ध पदार्थ
सेवन नहीं करे । यह हृदयशूल, पार्श्वशूल, आमवात,
कटिग्रह, गुल्मशूल, प्लीहशूल, यकृतशूल, मन्दाग्नि,
क्षय, कुष्ठ, खोंसी, श्वास, विचर्चिका, अश्वरी, और
मूत्रकृच्छ्र आदि सब रोगोंको नष्ट करता है २९-३७

भक्तवारिगुटिका ।

त्रिवृता चित्रकं मुस्तं त्रिफला त्र्यु-
षणं तथा । एकैकस्थ समो भागस्त-
दधो रसगन्धयोः ॥ ३८ ॥ लोहा-
त्रिकं विभागांतां चंद्रस्ताद्विगुणो
भवेत् । एतत्सकलचूर्णन्तु चूर्णयित्वा
विचक्षणः ॥ ३९ ॥ त्रिफलायाः क-
षायेण गुटिकां कारयेद्विषक । तत्रैकं

भक्षयेत्प्रातर्भक्तवारि पिबेदनु ॥ ४० ॥
पक्तिशूलं त्रिदोषोत्थमम्लापित्तं वमि-
ज्वरम् । हृच्छूलं पार्श्वशूलञ्च वस्तिकु-
क्षिशुदे रुजम् ॥ ४१ ॥ कासं श्वासं
तथा कुष्ठं ग्रहणीदोषनाशनम् । यकृ-
त्प्लीहोदरश्चैव राजयक्ष्मज्वरापहम् ४२

निसोल, चीता, नागरमांथा, हरड, बहेडा आमला,
सोंठ, भिरच, और पीपला-ये प्रत्येक औषधि दो २
तोले शुद्ध पारेकी भस्म १ तोला, शुद्ध गन्धक १
तोला, लोहेकी भस्म ६ तोले, और बंगकी भस्म ४
तोले लेवाइन सबको एकत्र पीसकर त्रिफलेके काथमें
खरल करके एक २ माशेकी गोलियाँ बनालेवे । प्रति
दिन एक गोली खाय और ऊपरसे भातके मांडका
अनुपान करे । यह भक्तवारिगुटिका-त्रिदोषजनित
परिणामशूल, अम्लपित्त, वमन, ज्वर, हृदयशूल,
पार्श्वशूल, वस्तिशूल, कुक्षिशूल, गुदशूल, खोंसी, श्वास,
कोढ, संग्रहणी, यकृत, प्लीहा, उदररोग, राजयक्ष्मा
और ज्वरको दूर करती है ॥ ३८-४२ ॥

त्रिफादिलोह ।

अक्षामलकशिवानां रवरसैः पक्कं
सुलोहजश्च रजः । सगुडं यद्युपभुंक्ते
मुञ्चति त्रिदोषजं शूलम् ॥ ४३ ॥

बहेडा, आमले और हरड इनके काथमें लोहेके
चूर्णको पकावे । फिर इसमें गुड मिलाकर सेवन करे
तो त्रिदोषजनितशूल दूर होता है ॥ ४३ ॥

सामुद्रादिचूर्ण ।

सामुद्रं सैन्धवं क्षारो रुचकं रौमकं
विडम् । दन्ती लोहरजः किट्टं त्रिवृ-
च्छूर्णकं समम् ॥ ४४ ॥ दधिगोमू-
त्रपयसा मन्दपावकपाचितम् । तद्य-
थाग्निबलं चूर्णं पिबेदुष्णेन वारिणा
॥ ४५ ॥ जीर्णं जीर्णं तु भुञ्जति मां-
सादिघृतसाधितम् । नाभिशूलं य-
कृच्छूलं गुल्मप्लीहकृतञ्च यत् ॥ ४६ ॥

विद्रध्यष्टलिजं हन्ति कफवातोद्भवं
तथा । अन्नद्रवं जरयितुमजीर्णं ग्रह-
णीगदम् ॥ ४७ ॥ शूलानामपि सर्वे-
षामौषधं नास्त्यतः परम् । परिणाम-
समुत्थस्य विशेषेणान्तकं स्मृतम् ४८

समुद्रनमक, सैधानमक, जवाखार, काला नमक,
सामरनमक, विड नमक, दती, लोहेका चूर्ण, मंडूर-
भस्म, निसोत, और जिमीकंठ ये सब समान भाग
लेकर वारिक पीसकर चूर्ण बनावे । इस चूर्णको ढही,
गोमूत्र और दूधमे मंद २ अग्निसे पकावे । जब सिद्ध
होजाय तब इसका चूर्ण करलेवे । इसको अग्निफे
वलानुसार गरम जलके साथ सेवन करे । जब
यह जीर्ण होजाय अथवा जीर्ण न हुआ हो तब भी
मांसादिके पदार्थोंको घीमे सिद्ध करके भोजन करे ।
यह सामुद्रादि चूर्ण—नाभिशूल, यकृतशूल, गुल्मशूल,
प्लीहाशूल, विद्रधि, अष्टीला, कफवातजनितशूल, अन्न-
द्रवशूल, अजीर्ण, ग्रहणीरोग और विशेष करके परि-
णामशूलको दूर करता है । सर्वप्रकारके शूलरोगोंकी
इससे उत्तम अन्य औषधि नहीं है ॥ ४४-४८ ॥

गुडपिप्पलीघृत ।

सपिप्पलीगुडं सर्पिः पचेत्क्षीरे चतु-
र्गुणे । विनिहन्त्यम्लपित्तञ्च शूलञ्च
परिणामजम् ॥ ४९ ॥

पिपिल, गुड और घी इनको चैगुने दूधमे पकाकर
सेवन करतेसे अम्लपित्त और परिणामशूल दूर होता
है ॥ ४९ ॥

पिप्पलीघृत ।

क्वाथेन कल्केन च पिप्पलीनां सिद्धं
घृतं माक्षिकसंभ्रयुक्तम् । क्षीरानुपानं
विनिहन्त्यवश्यं शूलं प्रवृद्धं परिणा-
मसंज्ञम् ॥ ५० ॥

पिपिलके कल्क और क्वाथके द्वारा घृतको सिद्ध
करे । फिर इसमे शहद मिलाकर दूधके साथ सेवन
करे । यह घृत—अत्यंत बढे हुए घोर परिणामशूलको
दूर करता है ॥ ५० ॥

लोहादिलेह ।

लोहस्य रजसो भागस्त्रिफलायास्त्र-
यस्तथा । गुडस्याष्टौ तथा भागा
गूडान्मूत्रं चतुर्गुणम् ॥ ५१ ॥ एतत्स-
र्वन्तु विपचेद्गुडपाकविधानवत् ।
लिहेच्चैतद्यथाशक्ति क्षये शूले च
पाकजे ॥ ५२ ॥

लोहेका चूर्ण १ भाग, त्रिफला ३ भाग, गुड ८ भाग
और गोमूत्र ३२ भाग लेवे । सबको एकत्र मिलाकर
गुडपाककी विधिसे पकावे । पश्चात् इसमेसे यथाश-
क्त्यनुसार सेवन करे । यह क्षय और परिणामश-
लको दूर करता है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥

कोलादिमण्डूर ।

कोलग्रन्थिकशृङ्गवेरचपलाक्षारैः समं
चूर्णितम् । मंडूरं सुरभीजलेऽष्टगुणिते
पक्त्वाथ सान्द्रीकृतम् ॥ ५३ ॥ त-
त्वादेदशनादिमध्याविरतौ प्रायेण
दुग्धान्नभुक् । जेतुं वातकफामयान्प-
रिणतौ शूलं हि शूलानि च ॥ ५४ ॥

चव्य, पीपिलामूल, सोंठ, पिपिल और जवाखार—
ये सब समान भाग लेवे और इन सबकी बराबर
मंडूर लेवे । सबको एकत्र पीसकर चूर्ण करलेवे और
अठगुने गोमूत्रमे पकावे । जब पककर गाढा होजाय
तब उतारकर छान लेवे । इसको भोजनके बीचमे
सेवन करे । प्रायः इसपर दूधके साथ भात खाय
तो इससे सर्वप्रकारके वातकफजनित रोग, परिणाम-
शूल और सर्व प्रकारके शूल नष्ट होते हैं ॥ ५३ ॥ ५४ ॥

भीमवटकमण्डूर ।

यवक्षारं कणा शुण्ठी कोलं ग्रन्थिक-
चित्रके । प्लप्रमाणमादाय प्रस्थं लो-
हस्य किट्टकम् ॥ ५५ ॥ शनैः पचेद्दा-
र्विलेपं गोमूत्राष्टगुणेन च । ततोऽक्ष-
मात्रान्वटकान्योजयेत्सत्तरात्रकम् ॥
॥ ५६ ॥ भक्षयेद्भोजनस्याग्रे मध्ये

भुक्तवतस्तथा । सर्पिः क्षीररसोपेनै
रसैर्जाङ्गलजैः शुभैः ॥ ५७ ॥ विनि-
हन्त्यम्लपित्तञ्च शूलं च परिणामजम् ।
सर्वशूलगदांश्चाशु नाशयत्येष वीर्य-
वान् । स भीमवटको ह्येष योगराजः
प्रकीर्तितः ॥ ५८ ॥

जवाखार, पीपल, मोठ, चव्य, पीपलामूल और
चीता-ये प्रत्येक औषधि चार चार तोले लेवे, लोह-
मण्डूर एक प्रस्थ लेवे । सबको अठगुने गोमूत्रमे
मंदमंद अग्निसे पकावे । जब पककर सिद्ध होजाय
तब एक एक तोलेके बडे बनालेवे । प्रतिदिन भोज-
नसे पहले भोजनके बीचमे और भोजनके अन्तमे
एक एक बडा खाया इस प्रकार सात दिनतक सेवन
करे । इसपर घी और दूधयुक्त जांगल प्राणियोंके
मांसरसको भोजन करे । यह अम्लपित्त, परिणामशूल,
और सर्व प्रकारके शूलोको दूर करता है । यह भीम-
वटक-सर्व योगोंका राजा है ॥ ५५-५८ ॥

क्षीरमण्डूर ।

लोहकिट्टपलान्यष्टौ गोमूत्रस्याढके
पचेत् । क्षीरप्रस्थेन तत्सिद्धं पक्तिशू-
लहरं नृणाम् ॥ ५९ ॥

आठ पल लोहेके मैलको एक आठक गोमूत्रमे
पकावे । जब सिद्ध होजाय तब एक प्रस्थ दूध डाल
कर पकावे । इसको सेवन करनेसे परिणामशूल दूर
होता है ॥ ५९ ॥

शतावरीमण्डूर ।

संशोध्य चूर्णितं कृत्वा मण्डूरस्य प-
ष्ठाष्टकम् । शतावरीरसस्याष्टौ दध्न-
श्च पयसस्तथा ॥ ६० ॥ पलान्यादाय
चत्वारि तथा गव्यस्य सर्पिषः । वि-
षचेत्सर्वमेकत्र यावत्पिण्डत्वमागत-
म् ॥ ६१ ॥ सिद्धन्तु भक्षयेन्मध्ये
भोजनस्याप्रतोऽपि वा । वातात्मकं
पिचभवं शूलञ्च परिणामजम् । वि-
निहन्त्येव योगोऽयं मण्डूरस्य न सं-
शयः ॥ ६२ ॥

शुद्ध किये हुए मण्डूरका चूर्ण आठ पल, शता-
वरीका रस आठ पल, दही आठ पल और दूध आठ
पल और गौका घी चार पल लेवे । सबको एकत्र
मिलाकर पकावे । जब पककर पिण्डके समान होजाय
तब उतार लेवे । इसको भोजनसे पहले, भोजनके
बीचमे और भोजनके अन्तमे सेवन करे । यह
शतावरीमण्डूर-वातजनित, पित्तजनित, परिणामशूल
और सर्वप्रकारके शूलोंको अवश्य दूर कर देता है ॥
॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥

तारामण्डूरगुड ।

विडङ्गं चित्रकं चव्यं त्रिफला त्र्यूष-
णानि च । नवभागानि सर्वाणि लो-
हकिट्टसमानि च ॥ ६३ ॥ गोमूत्रं द्वि-
गुणं दत्त्वा मूत्राद्विगुणितं गुडम् । श-
नैर्मृद्वग्निना पक्त्वा सुसिद्धं पिण्डतां
गतम् ॥ ६४ ॥ स्निग्धे भांडे विनिःक्षिप्य
भक्षयेत्कोलमात्रया । प्राङ्मध्यान्त-
क्रमेणैव भोजनस्य प्रयोजितः ॥ ६५ ॥
योगोऽयं शमयत्याशु पक्तिशूलं सु-
दारुणम् । कामलापांडुरोगश्च शोथं
मन्दाग्नितामपि ॥ ६६ ॥ अर्शांसि
ग्रहणीरोगं कृमिगुल्मोदराणि च ।
नाशयेदम्लपित्तं च स्थौल्यं चाप्य-
पकर्षति ॥ ६७ ॥ वर्जयेच्छुष्कशा-
कानि विदाह्यम्लकटूनि च । पक्ति-
शूलान्तको ह्येष गुडो मण्डूरसंज्ञकः ॥
शूलार्त्तानां कृपाहेतोस्तारया परि-
कीर्तितः ॥ ६८ ॥

वायविडग, चीता, चव्य, हरड, बहेडा, आमला,
सोंठ, मिरच और पीपल ये नौ औषधि एक एक
भाग और लोहेका मैल सबकी बराबर लेवे । गोमूत्र
सबसे दुगुना भाग और गोमूत्रसे दुगुना गुड लेवे ।
सबको एकत्र करके मन्द २ अग्निसे पकावे । जब
पककर पिण्डके समान हो जाय तब एक उत्तम
चिकने वासनमे भरकर रख देवे । इसमेंसे प्रतिदिन
एक तोला प्रमाण भोजनसे पहले, भोजनके बीचमे
और भोजनके अन्तमे भक्षण करे । यह तारामण्डूर-

दारुण परिणामशूल, कामला, पाण्डुरोग, सूजन, मन्दाग्नि, ववासीर, संग्रहणी, कृमि, गुल्म, उदररोग अम्लपित्त और स्थूलतादि समस्त रोगोको दूर करता है । इसपर सूखे शाक दाहकारक, खट्टे और चरपरे पदार्थ ये सब छोड़ने चाहिए । यह मण्डूरगुड परिणामशूलको नष्ट करनेवाला है । इसको तारादेवीने शूलरोगियोपर दया करके पूर्वकालमे कहा है ॥६३-॥ ६८ ॥

पुनर्नवादिमण्डूर ।

वर्षाभूर्वरुणोमानलोहकिट्टन्तु पूतक-
म् । भाङ्गी च समभागानि मूत्रे दश-
गुणे पचेत् ॥ ६९ ॥ अन्तर्धूमविपक्वेन
मधुसर्पियुतं लिहन् वाताधिकं तथा
पित्तं द्वन्द्वजं श्लेष्मजं तथा । एष
त्रिदोषजं हन्ति शूलं हि परिणाम-
जम् ॥ ७० ॥

पुनर्नवा, वरुना, मानकन्द, शुद्धलोहेका मैल और भारगी-ये सब औषधि समान भाग लेकर दशगुने गोमूत्रमे पकावे पश्चात् इसको सम्पुटमें रखकर पकावे । इसमे गहद और घी मिलाकर सेवन करे । यह मण्डूर-वातज, पित्तज, द्वन्द्वज, कफज और त्रिदोषजनित परिमाणशूलको नष्ट करता है ॥ ६९ ॥ ॥ ७० ॥

बृहत्यूषणादिमण्डूर ।

त्र्यूषणं त्रिफला चव्यं विडङ्गानल-
जीरकम् । शृङ्गी सुस्तं देवकाष्टं कार-
वी धान्यतुम्बुरु ॥७१॥ दन्तीत्रिवृत्त-
योर्भूलं ग्रन्थिकं गजपिप्पली । त्वगे-
लापत्रकं चूर्णं सर्वमर्द्धपलं पृथक् ॥७२
गृह्णीयाद्गन्धपाषाणं केशरं चाक्षस-
म्मितम् । मंडूरस्य विशुद्धस्य पला-
नां पञ्चविंशतिः ॥ ७३ ॥ कृत्वा चूर्णं
ततः सूक्ष्मं स्वरसैर्भावयेत्तु तम् ।
कर्कोटककेशराजवन्ध्यातालसमुद्भ-
वैः ॥७४॥ धात्रीफलरसप्रस्थं मूत्रमष्टगु-
णं तथा । दत्त्वा त्रिपाचयेत्तावद्यावत्पा-
कश्च गच्छति ॥७५॥ खांदेदग्निबलं म-

त्वा परिहारविवाजितः । वातश्लेष्मो-
द्भवं शूलमम्लपित्तं सुदारुणम् ॥७६॥
प्रीहानमुदरं गुल्मं ग्रहणीपांडुकाम-
लाम् । कृमीनर्शांसि कुष्ठानि शोष-
स्थौल्यमरोचकम् ॥ ७७ ॥ ये वात-
प्रभवा रोगा ये च पित्तकफोद्भवाः ।
तान्सर्वात्राशयत्याशु भास्करस्ति-
मिरं यथा । त्र्यूषणं नाम विख्यातं
वह्नेदीप्तिकं परम् ॥ ७८ ॥

सोठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, चव्य, वायविडग, चीता, जीरा, काकडाशीगी, नागरमोथा, देवदारु, कलौजी, धनिया, तुम्बुरु, दंतीकी जड, निसोतकी जड, पीपलामूल, गजपीपल, ढालचीनी, इलायची और तेजपात ये प्रत्येक औषधि दो २ तोले, शुद्ध गन्धक १ तोला, नागकेशर १ तोला और शुद्ध मण्डूर २५ पल-इन सबका बारीक चूर्ण करके काकडा, भांगरा, वाँझककोडा और ताड़ इनके रसमें पृथक् २ भावना देवे । फिर इसमे आमलोका स्वरस १ प्रस्थ और गोमूत्र आठ भाग डालकर मन्द २ अग्निसे पकावे । जब पककर सिद्ध होजाय तब इसमेंसे अग्निके बलानुसार सेवन करे । इसपर कुछ परहेज नहीं है । यह औषधि-त्रातकफ-जनितशूल, दारुण अम्लपित्त, प्रीहा, उदररोग, गुल्म, संग्रहणी, पाण्डु, कामला, कृमिरोग, ववासीर, कोढ, शोष, स्थौल्य, अरुचि, समस्त वात, समस्त पित्तरोग और सम्पूर्ण कफरोगोको दूर करता है । जिस प्रकार सूर्य अन्धकारके समूहको नष्ट करता है । यह त्र्यूषणादि मण्डूर-अग्निको अत्यन्त दीपन करता है ॥ ७१-७८ ॥

नारिकेललवण ।

नारिकेलस्य तोयञ्च लवणेन प्रपूरि-
तम् । विपक्वमग्निना सम्यक्परिणा-
मजशूलनुत् ॥ ७९ ॥ वातिकं पैत्ति-
कश्चैव श्लैष्मिकं सन्निपातिकम् ॥ ८० ॥

नारियलके जलमे लवण डालकर अच्छे प्रकार अग्निसे सिद्ध करे । यह वातज, पित्तज और कफज सर्वप्रकारके परिणामशूलको दूर करता है ॥ ७९ ॥ ८० ॥

अयोगुग्गुलु ।

त्रिफला मुस्तकं व्योषं विडङ्गं पुष्करं
वचा । चित्रकं मधुकं चैव पलांशं
श्लक्ष्णचूर्णितम् ॥ ८१ ॥ अयश्चूर्णं
पलान्यष्टौ गुग्गुलोस्तावदेव तु । प्रा-
तर्विलिह्य भुज्जानोऽजीर्णोऽस्मिन्स्तु
जयेद्भुजम् ॥ ८२ ॥ जीर्णात्रिसम्भवं
शूलं पांडुरोगं हलीमकम् । आम-
वातं तथा गुल्मं श्वययुं विषमज्व-
रम् ॥ ८३ ॥

हरद, बहेडा, आमला, नागरमोथा, सोठ, मिरच,
पीपल, वायविडंग, पांढकरमूल, वच, चीता और मुलैठी
ये प्रत्येक औषधि चार चार तोले लेवे, टोंहका चूर्ण
८ पल, गुगुल ८ पल इन सबको एकत्र मिलाकर खूब
कूट कर एकजीव कर ले फिर एक चिकने वासनमें
करके रख देवे । इसमेंमे प्रतिदिन प्रातःकाल भक्षण
करे और इसके जीर्ण होनेपर भोजन करे । यह लौह
गुगुल-परिणामशूल, पांडुरोग, हलीमक, आमवात, गुल्म,
सूजन और विषमज्वरको दूर करता है ॥ ८१-८३ ॥

आमलकखण्ड ।

स्विन्नपीडितकूष्माण्डात्तुलार्थं भृष्ट-
मान्यतः । प्रस्थार्द्धं तुल्यखण्डश्च पचे-
दामलकीरसात् ॥ ८४ ॥ प्रस्थे सुस्वि-
न्नकूष्माण्डरसप्रस्थं विघ्नकृत्यन् । दर्व्या
पाकं गते तस्मिन्श्चूर्णीकृत्य नि-
धापयेत् ॥ ८५ ॥ द्वे द्वे पले कणाजा-
जीशुण्ठीनां मरिचस्य च । पलं ता-
लीशधान्याकचातुर्जातकमुस्तकम् ॥
॥ ८६ ॥ कर्षप्रमाणं प्रथेकं प्रस्थार्द्धं
माक्षिकस्य च । पक्तिशूलं निहन्त्येव
दोषत्रयकृतञ्च यत् ॥ ८७ ॥ छर्चम्ल-
पित्तमूर्च्छाश्च कासश्वासावरोचकम् ।
हृच्छूलं रक्तपित्तञ्च पृष्ठशूलञ्च नाश-
येत् । रसायनमिदं श्रेष्ठं खण्डामल-
कसंज्ञकम् ॥ ८८ ॥

उसीजा हुआ और निचोडा हुआ पेठा २००
तोले लेकर ६४ तोले घीमे भूने । फिर उसमें स्वच्छ
खांड ३२ तोले, आमलोंका रस ३२ तोले और
पेठेका रस ६४ तोले डाल कर सबको एकत्र मिला
कर पकावे । जब पकते २ करछीसे लगने लगजाय
तब इसमें पीपल, जीरा, सोठ और काली मिरच
प्रत्येक औषधिका चूर्ण आठ २ तोले, तालीसपत्र
४ तोले, धनियां ४ तोले, दालचीनी, इलायची, नाग-
केशर, तेजपात और नागरमोथा ये औषधि एक २
तोला पीसकर मिलादेवे । और ३२ तोले शदह
मिलावे । यह-त्रिदोषजनित और परिणामशूल, वमन,
अम्लपित्त, मूर्च्छा, खाँसी, श्वास, अरुचि, हृदयशूल,
रक्तपित्त और पृष्ठशूलको नष्ट करता है । यह खण्डा-
मलक नामवाली उत्तम रसायन है ॥ ८४-८८ ॥

अशौविकारनिर्दिष्टो लोहो लोहामृ-
ताह्वयः । परिणामशूलशान्त्यर्थं कर्त्त-
व्यः संप्रजानता ॥ ८९ ॥

ववासीर रोगमें जो अमृताह्वयलोह कहा है वह
परिणामशूलमें भी शूलकी शांतिके लिये प्रयोग
करना चाहिए ॥ ८९ ॥

अथान्नद्रवशूलनिदान ।

जीर्णोऽजीर्यत्यजीर्णं वा यच्छूलमुप-
जायते । पथ्यापथ्यप्रयोगेण भोजने-
ऽभोजनेन वा । न शमं याति निय-
मात्सोऽन्नद्रव उदाहृतः ॥ ९० ॥

भोजनके पचनेपर अथवा पचते समय या भोज-
नके अजीर्ण अवस्थामें जो शूल उत्पन्न होता है उसको
अन्नद्रवशूल कहते हैं । वह अन्नद्रवशूल पथ्यापथ्यसे
तथा भोजन करनेसे या नहीं भोजन करनेसे नियमसे
जांत नहीं होता ॥ ९० ॥

अन्नद्रवाख्ये शूले तु न तावत्स्वा-
स्थ्यमश्नुते । यावत्कटुकपित्ताम्ल-
मंत्रं न च्छर्दयेद्भवम् ॥ ९१ ॥

अन्नद्रवशूलमें जबतक चरपरे, कड़वे पित्तोंको
और खट्टे अन्नको वमनके द्वारा नहीं गेरता तबतक
शांति नहीं होती है ॥ ९१ ॥

चिकित्सा ।

वान्तमात्रे जरत्पित्ते शूलमाशु प्रशा-
भ्यति । पित्तार्तं वमनं कार्यं कफार्तञ्च
विरेचनम् ॥ ९२ ॥

जरत्पित्तमें केवल वमन करानेसे ही शूल शांत हो
जाता है इसमें जबतक पित्त गिरे तबतक वमन करानी
चाहिए और जबतक कफ गिरे तबतक विरेचन
करानी चाहिये ॥ ९२ ॥

अन्नद्रव्ये च तत्कार्यं जरत्पित्ते यदी-
रितम् । आमपक्वाशये शुद्धे गच्छे-
दन्नद्रव्यः शमम् ॥ ९३ ॥

जरत्पित्तमे जो औपधियां कही है वे सब अन्नद्रव-
शूलमे प्रयोग करनी चाहिये। आमाशय और पक्वाश-
यके शुद्ध होनेपर अन्नद्रवशूल अपने आप शमन
हो जाता है ॥ ९३ ॥

मोषण्डरीं समधुकां सुस्विन्नान्तैलपा-
चिताम् । तादृशीं सर्पिषा खादेदन्न-
द्रवनिपीडितः ॥ ९४ ॥

उडदकी बडी बना कर तेलमे पकावे । फिर उनको
शहदमे डालकर घीके साथ भक्षण करे तो अन्नद्रव
शांत होता है ॥ ९४ ॥

धात्रीफलभवं चूर्णमयश्चूर्णसमायुतम् ।
यष्टीचूर्णेन वा युक्तं लिह्यात्क्षौ-
द्रेण तद्गदे ॥ ९५ ॥

आमलोकं चूर्णमें लोहेका चूर्ण मिलाकर अथवा
मुलैठीके चूर्णमें लोहेका चूर्ण मिलाकर शहदके साथ
सेवन करनेसे अन्नद्रवशूल शमन होता है ॥ ९५ ॥

श्यामाकतंडुलैः सिद्धं सिद्धं कोद्रव-
तंडुलैः । भ्रियङ्गुतंडुलैः सिद्धं पायसं
शार्करं हितम् ॥ ९६ ॥

रसेके चावलोंकी, कोदोके चावलोंकी या कंगु-
नीके चावलोंकी दूधमे खीर बना कर उसमे उत्तम
खाड डाल कर सेवन करे तो अन्नद्रवशूल शांत होता
ह ॥ ९६ ॥

गौडिकं सौरणं कन्दं कूप्मांडं वापि
भक्षयेत् । कलाययवसक्तृन्वा सक्तू-

न्वा लाजसम्भवान् ॥ ९७ ॥ कुलि-
त्थसक्तूनथवा दध्नाऽद्याद्विस्तरेण तु ।
चणकानामथवा सक्तून् कोद्रवस्यौ-
दनं तथा ॥ ९८ ॥ गोधूममंडकं तत्र
सर्पिषा गुडसंयुतम् । ससितं शीत-
दुग्धेन मृदितं वा हितं मतम् ॥ ९९ ॥

इसमें गुडके वने पदार्थ, सूरणकंद, पेटा, मटर,
जाँके सत्तू, खीलोंके सत्तू, या कुलथीके सत्तू, दहीके
साथ खाय अथवा दहीके वन हुए पदार्थोंको भक्षण
करे, चनेके सत्तू अथवा कोदोका भात थे सब हित-
कारी हैं । गेहूँके मडकको घी और गुड तथा घृरा
मिला कर शीतल दूधमे मिला कर खानाभी हितकारक
है ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥

पटोलपत्रयूषेण खादेच्चणकसक्तुकान् ।
भृष्टा वा चणकान्खादेद्गुजावानथ
निस्तुषान् ॥ १०० ॥

अथवा अन्नद्रवशूलमें चनेके सत्तूओको पटोलपत्र-
के यूपके साथ भक्षण करे । अथवा मुने हुए चनोंके
वडे बनाकर खाय ॥ १०० ॥

कलायान्वा निराहारस्तृषितः क्षी-
रपो भवेत् ॥ १०१ ॥

अथवा निराहार होनेपर केवल मटरको खाय और
तृषा लगनेपर दूधको पीवे ॥ १०१ ॥

अन्नद्रवो दुश्चिकित्स्यो दुर्विज्ञेयो म-
हागदः । तस्मात्तस्य प्रशमने परं यत्नं
समाचरेत् ॥ १०२ ॥

वैद्यको उचित है कि अन्नद्रवशूल भयकर, महारोग
और दुश्चिकित्स्य है, इस कारण इसकी शांति करनेमें
अच्छे प्रकारके यत्न करे ॥ १०२ ॥

अन्नद्रवे जरत्पित्ते वह्निर्मन्दो भवे-
द्यतः । तस्मादन्नानि पानानि दीप-
नीयानि कारयेत् ॥ १०३ ॥

अन्नद्रव और जरत्पित्तमे अग्नि मंद हो जाती है इस
कारण इसमें सम्पूर्ण अन्नपान अग्निको दीपन करने-
वाले सेवन करने चाहिये ॥ १०३ ॥

कलायवगोधूमश्यामाकाः कौरदू-
षकाः । राजभाषाः स्थूलभाषाः कु-
लित्थाः कडुशालयः ॥ १०४ ॥ भोज-
नार्थं प्रशस्ताश्च पुराणाः सप्रियङ्ग-
वः । दधिल्लुपतरसं क्षीरं गव्यमाजंसमा-
हिषम् । घृतं पुराणं शाकार्थं वा-
स्तुको निम्बपल्लवाः ॥ १०५ ॥ कर्को-
टकारवेल्लामां पत्राणि च फलानि
च । यानि कानि प्रयोज्यानि कास-
मर्दफलानि च ॥ १०६ ॥ बर्हिणो
हरिणा मत्स्या रोहिताः सकपिञ्जलाः ।
एतस्मिन्नामये शस्ता मता मुनिचि-
कित्सकैः ॥ १०७ ॥

मटर, जाँ, गेहूँ, समा, कोदों, लोविया, बडा लो-
विया, कुलथी, कंगुनी, जालिचावल और पुराने कंगु-
नीवान ये सब अन्नद्रवशूलमे भोजनके लिये प्रयोग
करने चाहिएँ । दही मथा हुआ, दूध, गाय भैंसका
धी, पुराना धी, बधुएका शाक, नीमके पत्तोका
शाक, ककोडे और करेलेके पत्तो व फलोंका शाक,
तथा कसौदीके फलोंका शाक, मोर और हिरनका
मौस, रोहू मखली और तीतर ये सब अन्नद्रव
शूलमें हितकारी है ऐसा प्राचीन मुनियोंने कहा है
॥ १०४-१०७ ॥

गुडमंडूर ।

गुडामलकपथ्यानां चूर्णं प्रत्येकशः
पलम् । त्रिपलं लोहकिट्टस्य तत्सर्वं
मधुसर्पिषा ॥ १०८ ॥ समालोडय ततः
खादेदक्षमात्रं प्रमाणतः । आदि-
मध्यावसानेषु भोजनस्य निहन्ति
तत ॥ १०९ ॥ अन्नद्रवं जरत्पित्तम-
म्लपित्तं सुदारुणम् । परिणामसमु-
त्थञ्च शूलं संवत्सरोत्थितम् ॥ ११० ॥

गुड, आमले और हरड प्रत्येकका चूर्ण चार २
तोले और लोहेका मल १२ तोले लेवे, सबको एकत्र
शहद और घीमें मिला कर प्रतिदिन एक तोला परि-

माण खाय । इसको भोजनके आदि, भोजनके मध्य
और भोजनके अन्तमे सेवन करना चाहिए । यह
गुडमण्डूर-अन्नद्रवशूल, जरत्पित्त, दारुण अम्लपित्त
और एक वर्षके पुराने परिणामशूलको दूर करता है
॥ १०८ ॥ १०९ ॥ ११० ॥

कलायचूर्णगुटिका ।

कलायचूर्णं भागौ द्वौ लोहकिट्टस्य
चापरः । कारवेल्लपलाशानां रसेनैव
विमर्दयेत् ॥ १११ ॥ कर्षमात्रां तत-
श्चैकां भक्षयेद्गुटिकां नरः । मण्डानु-
पानात्सा हन्ति जरत्पित्तं सुदुर्ज-
यम् ॥ ११२ ॥

मटरका चूर्ण २ भाग और लोहेका मल १ भाग
दांनोको एकत्र कर करेलेके पत्तोके रसमे खरल करके
एक २ तोलेकी गोलियाँ बना लेवे इन गोलियोंको
माडके अनुपानके साथ भक्षण करे तो दुःसाध्य
जरत्पित्त शूल दूर होता है ॥ १११ ॥ ११२ ॥

एण्डसप्तकं पेयं हृषुषाद्यं सदा हि-
तम् । धान्वन्तरं सकौमारं घृतं रासा-
यनञ्च यत् ॥ ११३ ॥

अन्नद्रवशूलमें एण्डसप्तक, हृषुषाद्यघृत, धान्वन्तर-
घृत, सौकुमारघृत तथा इसके सिवाय अन्यान्य रसा-
यनघृत प्रयोग करने चाहिये ॥ ११३ ॥

इति संक्षेपतः प्रोक्तमन्नद्रवचिकि-
त्सितम् । अन्नद्रवेऽपि यत्प्रोक्तं जर-
त्पित्तेऽपि तद्वितम् ॥ ११४ ॥

इस प्रकार संक्षेपसे यह अन्नद्रवशूलकी चिकि-
त्सा कही है । अन्नद्रवशूलमे जो चिकित्सा कही है
वह सब जरत्पित्तमें भी हितकारी है ॥ ११४ ॥

इति श्रीवंगसेने भाषाटीकाया
परिणामशूलान्नद्रवजरत्पित्तनिदान-
चिकित्साधिकार समाप्त ॥ २९ ॥

अथोदावर्त्तरोगाधिकार ।



तत्रादाबुदावर्तनिदानमाह ।

वातविण्मूत्रजृम्भाश्रुक्षवोद्गारवमी-
न्द्रियैः । क्षुत्तृष्णाश्वासनिद्राणां धृत्यो-
दावर्त्तसम्भवः ॥ १ ॥

वायु, मल, मूत्र, जम्भाई, आंसू, छींक, उकार, वमन, वीर्य्य, क्षुधा, तृषा, श्वास और निद्रा इनके वेगोको रोकनेसे तेरह प्रकारका उदावर्त्त रोग उत्पन्न होता है ॥ १ ॥

वातमूत्रपुरीषाणा सङ्गाध्मानं क्लमो
रुजः । जठरे वातजाश्चान्ये रोगाः
स्युर्वातनिग्रहात् ॥ २ ॥

अधोवातरोधजनक उदावर्त्तरोगमे वायु, मूत्र और मलका अवरोध, आध्मान, ग्लानि, पीडा, तथा उदरमे वातजनित तोद शूलादि नानाप्रकारके रोग उत्पन्न होते है ॥ २ ॥

आटोपशूलौ परिकर्त्तिका च सङ्गः
पुरीषस्य तथोर्ध्ववातः । पुरीषमा-
स्यादथवा निरेति पुरीषवेगेऽभिहिते
नरस्य ॥ ३ ॥

मलवेगरोधजनित उदावर्त्त रोगमे पेटमें गुड २ शब्द, गुदाद्वारमे कतरनीके समान पीडा, मलरोध और वायुकी ऊर्ध्वगति तथा कभी २ मुखके द्वारा मल निकलता है ॥ ३ ॥

वस्तिमेहनयोः शूलं मूत्रकृच्छ्रं शिरो-
रुजा । विनामो वङ्गक्षणाहाहः स्या-
ल्लिङ्गं मूत्रनिग्रहे ॥ ४ ॥

मूत्रवेगरोधजनित उदावर्त्त रोगमे वस्ति और लिंगमे शूल, मूत्रकृच्छ्र और गिरमे पीडा तथा वक्षण देगमे आनाहकी पीडासे शरीर नव जाता है ॥ ४ ॥

मन्यागलस्तम्भशिरोविकारा जृम्भो-
पघातात्पवनात्मकाः स्युः ।

तथाक्षिनासावदनामयाश्च भवन्ति
तीव्राः सह कर्णरोगैः ॥ ५ ॥

जम्भाईके रोकनेसे जो उदावर्त्त रोग होता है उसमें मन्यास्तम्भ और गलस्तम्भ होता है तथा वातजन्य तीव्र शिरोरोग, नेत्ररोग, नासारोग, कर्ण-रोग और मुखरोग उत्पन्न होते हैं ॥ ५ ॥

आनन्दजं वाप्यथ शोकजं वा नेत्रो-
दकं प्राप्तममुश्चतो हि । शिरोगुरु-
त्वं नयनामयाश्च भवन्ति तीव्राः सह
पीनसेन ॥ ६ ॥

आनन्द अथवा शोकसे उत्पन्न हुए जो आंसू उनको रोकनेसे जो उदावर्त्त रोग उत्पन्न होता है उसमे गिरमें भारीपन, पीनसरोग और भयंकर नेत्र-रोग उत्पन्न होते है ॥ ६ ॥

मन्यास्तम्भः शिरःशूलमर्दितार्धा-
वभेदकौ । इन्द्रियाणाश्च दौर्बल्यं
क्षवथोः स्याद्विधारणात् ॥ ७ ॥

छींकके वेगका रोकनेसे जो उदावर्त्त रोग उत्पन्न होता है उसमें मन्यास्तम्भ, शिरःशूल, आर्दित, अर्द्धा-वभेदक और सम्पूर्ण इन्द्रियोमे दुर्बलता उत्पन्न होती है ॥ ७ ॥

कण्ठास्यपूर्णत्वमतीव तोदः कूजश्च
वायोरथवा प्रवृत्तिः । उद्गारवेगे-
ऽभिहिते भवन्ति जन्तोर्विकाराः पव-
नप्रसूताः ॥ ८ ॥

उद्गार अर्थात् उकारको रोकनेसे जो उदावर्त्तरोग उत्पन्न होता है उसमे मुख और कण्ठ भरासा मालूम हो, सुई छेदने सरीखी पीडा हो, अव्यक्त भाषण और श्वासका अवरोध होता है तथा वातजनित हिकादि रोग उत्पन्न होते है ॥ ८ ॥

कण्डूकोठारुचिव्यङ्गशोफपांड्वामय-
ज्वराः । कुष्ठवीसर्पहल्लासाश्छर्दिनिग्र-
हजा गदाः ॥ ९ ॥

वमनको रोकनेसे जो उदावर्त्त रोग उत्पन्न होता है उसमें खुजली, मण्डलके समान गोल २ चकत्ते पड-

जाते हैं, शरीरमें खुजली, अरुचि, व्यंग, (झाँड़), पांडु, ज्वर, कुष्ठ, विसर्प और उबकाई आदि अनेक विकार होते हैं ॥ ९ ॥

मूत्राशये वै गुदमुष्कयोश्च शोथो रुजा मूत्रविनिग्रहश्च । शुक्राश्मरी तत्प्रवणं भवेच्च ते ते विकाराभिहतेऽतिशुक्रे ॥ १० ॥

वीर्यके वेगको रोकनेसे जो उदावर्त रोग उत्पन्न होता है उसमें मूत्राशय, मलद्वार और अङ्गुलीशोमें सूजन तथा पीडा होती है, मूत्ररोग, शुक्रजअश्मरी, वीर्यस्त्राव और वीर्यक्षरणके अनेक विकार होते हैं ॥ १० ॥

तन्द्राङ्गमर्दारुचिविभ्रमाश्च क्षुधाभिघातात्कृशता च दृष्टेः ।

क्षुधाके वेगको धारण करनेसे जो उदावर्त रोग उत्पन्न होता है उसमें तन्द्रा, अंगोका दूटना, अरुचि, श्रम, दृष्टिकी हानता और कृशता होती है ॥

कण्ठास्यशोषः श्रवणावरोधस्तृष्णाभिघाताद्दृढव्यथा च ॥ ११ ॥

तृपाके रोकनेसे जो उदावर्त रोग उत्पन्न होता है उसमें कंठ और मुखका सूखना, कानोमें शब्दका नहीं सुनना और हृदयमें पीडा होती है ॥ ११ ॥

श्रान्तस्य निःश्वासविनिग्रहेण हद्रोगमोहावथवापि गुल्मः ।

जो थका हुआ मनुष्य श्वासके वेगको रोकता है तो उसके जो उदावर्त रोग उत्पन्न होता है उसमें हृदयरोग, मूर्च्छा और गुल्मरोग उत्पन्न होता है ॥

जृम्भाङ्गमर्दाक्षिशिरोऽतिजाड्यं निद्राभिघातादथवापि तन्द्रा ॥ १२ ॥

निद्राके वेगको रोकनेसे जो उदावर्त रोग उत्पन्न होता है उसमें जम्भाई, अंगोका दूटना, नेत्र और मस्तकमें जडता तथा तन्द्रा होती है ॥ १२ ॥

असाध्यलक्षण ।

तृष्णादितं परिक्लिन्नं क्षीणं शूलैरुपद्रुतम् । शकृद्गमन्तं मतिमानुदावर्त्तिनमुत्सृजेत् ॥ १३ ॥

तृषासे पीडित, क्लेशयुक्त, क्षीण, शूलसे दुःखित और जो मलकी वमन करे ऐसे उदावर्तरोगीकी वैद्य चिकित्सा नहीं करे ॥ १३ ॥

अथ चिकित्सा ।

सर्वेष्वेतेषु विधिवदुदावर्त्तेषु कृत्स्नशः । वायोः क्रिया विधातव्या स्वमार्गप्रतिपत्तये ॥ १४ ॥

इन सब उदावर्त्तमें वायु ही मुख्य कारण है, इसलिये प्रथम वातको ही अपन मार्गमें लानेके लिये यत्न करना चाहिए ॥ १४ ॥

पुरीषजे तु कर्त्तव्यो विधिरानाहिकश्च यः । क्षारवैतरणो बस्ती युञ्ज्यादत्र चिकित्सकः ॥ १५ ॥ सौवर्चलाढ्यां मदिरां मूत्रे त्वभिहते पिबेत् । एलां वाप्यथ भद्येन क्षीरं वारि तथा पिबेत् ॥ १६ ॥

पुरीषजनित उदावर्त्त रोगमें आनाहके समान चिकित्सा करनी चाहिए । तथा क्षार और वैतरणरूप वस्ति प्रयोग करे । मूत्रजनित उदावर्त्तरोगमें काले नमकको मदिरामें डालकर पीवे । इलायचीको मदिराके साथ अथवा दूधके साथ किवा जलके साथ पान करनेसे मूत्रवेगरोधजनित उदावर्त्त रोग शान्त होता है ॥ १५ ॥ १६ ॥

दुस्पर्शास्वरसं वापि कषायककुभस्य च । एवार्बुबीजं तोयेन पिबेद्वा लवणीकृतम् ॥ १७ ॥

जवासेके काथ या अर्जुनकी छालके काथको पीनेसे मूत्रजनित उदावर्त्तरोग शान्त होता है । ककड़ीके बीजको जलमें पीसकर नमक डालकर सेवन करनेसे मूत्रवेगरोधजनित उदावर्त्तरोग शान्त होता है ॥ १७ ॥

शर्करेश्वरसं क्षीरं द्राक्षारसमथापि वा । सर्वत्रैव प्रयुञ्जीत मूत्रकृच्छ्राश्मरीविधिम् ॥ १८ ॥

मिश्री, ईखका रस, दूध अथवा दाखका रस इन सबको उदावर्त्त रोगमें सेवन करना चाहिए । इस उदावर्त्त रोगमें सम्पूर्ण मूत्रकृच्छ्र और अश्मरीरोगोक्त विधि करनी चाहिए ॥ १८ ॥

स्नेहस्वेदरुदावर्त्तं जृम्भजं समुपाच-
रेत् । अश्रुमोक्षोऽश्रुजे कार्य्यः स्निग्ध-
स्विन्नस्य देहिनः ॥ १९ ॥

जम्भाईके रोकनेसे उत्पन्न हुए उदावर्त्तको स्नेह
और स्वेदके द्वारा दूर करना चाहिए । आंसुओंके
रोकनेसे उत्पन्न हुए छदावर्त्तको प्रथम स्निग्ध और
स्वेदित करके आसू निकलवावे ॥ १९ ॥

क्षवजे क्षवपत्रेण घ्राणस्थेनानेयत्क्ष-
वम् । तथोर्ध्वजङ्घकेऽभ्यङ्गः स्वेदो
धूमः समाहृतः ॥ २० ॥

छोकके रोकनेसे उत्पन्न हुए उदावर्त्तमे नकछिक-
नीके पत्तोंको नासिकाके द्वारा सूघकर छोक लेवे
तथा गरदनके ऊपर मालिश करावे, स्वेद निकल-
वावे और धूम्रपान करावे ॥ २० ॥

उद्गारजे क्रमोपेतं स्नेहिकं धूममाच-
रेत् । वम्याघातं यथादोषं सम्यक्स्ने-
हादिभिर्जयेत् ॥ २१ ॥ सक्षारलवणोपे-
तमभ्यङ्गं वाऽत्र दापयेत् । वस्तिशुद्धि-
करं सिद्धं चतुर्गुणजलं पयः ॥ २२ ॥
आवारिनाशात्कथितं पीतवन्तं प्रका-
मतः । रमयेयुः प्रिया नार्य्यः शुक्रो-
दावर्त्तिनं परम् ॥ २३ ॥

उद्गारके रोकनेसे उत्पन्न हुए उदावर्त्तमे स्नेहयुक्त
धूम्रपान करे अर्थात् स्निग्ध पदार्थोंको अग्निपर डाल-
कर उनका धुआँ पीवे । वमनके रोकनेसे उत्पन्न हुए
उदावर्त्तमे यथादोषानुसार अच्छे प्रकारसे स्नेहादि
कर्म करे । तथा जवाखार और सैधानमक इनको
एकत्र पीसकर तेलमें डालकर इनकी मालिश करे ।
वीर्यके वेगको रोकनेसे उत्पन्न हुए उदावर्त्तमे दूधमे
चौगुना पानी डालकर तथा सूत्राण्यको शुद्ध करने-
वाले पदार्थ डालकर पकावे । जब सब जल जलजाय
केवल दूध बाकी रहजाय तब मिश्री डालकर पीवे

१ वीर्यके उदावर्त्तके लक्षण नहीं कहे और चिकित्सा
कही है, किसीका ऐसा मत है कि वेगोंको न रोके परन्तु काम
आदि पांच वेगोंको रोके । वीर्यके रोकनेसे ही पूर्व कालमें
ऊर्ध्वरेतम कहलाते थे क्यों कि वीर्य रहनेसे ही मनुष्य बल-
वान् होता है ।

और अपना प्यारो कामे सम्भाग करे
॥२१॥ २२॥२३॥

अत्राभ्यङ्गावगाहश्च मदिराश्वरणा-
युधाः । शाली पयो निरूहाश्च हितं
मेथुनमेव च ॥ २४ ॥

इस उदावर्त्तमे अभ्यग, अवगाहन, मद्यपान, गुर-
गेका मांस, शालिचावल, दूध, निरूहवास्ति और
मेथुन-ये सब हितकारी हैं ॥ २४ ॥

क्षुद्धिघाते हितं स्निग्धमुष्णमल्पश्च
भोजनम् । तृष्णाघाते पिवन्मन्थं
यवागू वा सुशीतलाम् ॥ २५ ॥ रसे-
नाद्यान्तु विश्रान्तः श्रमश्वासातुरो
नरः । निद्राघाते पिवेत्क्षीरं सुप्या-
च्चेष्टकथारतः ॥ २६ ॥

क्षुधाके वेगको रोकनेसे जो उदावर्त्त रोग उत्पन्न
होता है उसमें स्निग्ध और उष्ण ऐसा अल्प भोजन
करे । तृष्णाके रोकनेसे उत्पन्न उदावर्त्तमे मंथ और
शीतल यवागू पान करे । विशेष परिश्रम करनेसे जो
श्वास होता है उस श्वासको रोकनेसे उत्पन्न उदा-
वर्त्तमे आनन्दपूर्वक विश्राम करे और मासरसके साथ
भोजन करे । निद्राके वेगको रोकनेसे उत्पन्न उदाव-
र्त्तमे दूधको पीवे, आनन्दपूर्वक उत्तम शय्यापर
शयन करे और उत्तम उत्तम हर्षोत्पादक कथा
सुने ॥२५॥ २६॥

अन्यत उदावर्त्तभेदनिदान ।

वायुः कोष्ठानुगो रूक्षैः कषायकटु-
तिक्तकैः । भोजनैः कुपितः सद्य उ-
दावर्त्तं करोति च ॥ २७ ॥ वातमू-
त्रपुरीषाश्रुकफमेदोवहानि च । स्रो-
तांस्युदावर्त्तयति पुरीषं चापि वर्त्त-
येत् ॥ २८ ॥ ततो हृद्गस्तिशूलार्तो
हृत्तासारतिपीडितः । वातमूत्रपुरी-
षाणि कृच्छ्रेण लभते नरः ॥ २९ ॥
श्वासकासप्रतिश्यायदाहमोहतृषा-
ज्वरान् । वमिहिकाशिरोरोगमनः-
श्रवणविभ्रमान् ॥ बहूनन्यांश्च लभते
विकारान्वातकोपजान् ॥ ३० ॥

रूखे, कपैले, तीक्ष्ण और कडवे भोजनोसे कुपित हुई कोठेमें रहनेवाली वायु तत्काल उदावर्तरोगको उत्पन्न करती है । कुपित हुई वात, अधोवायु, मूत्र, विष्टा, आँसू, कफ और मदाको वहानेवाली नाडियोंके मार्गको रोककर मलको स्तम्भित करती है तब हृदय तथा वस्तिशूल, हृल्लास अरति इनके पीडित होनेसे मनुष्यको अधोवायु, मूत्र और विष्टा थोड़े रे कठिनतासे उतरते है तथा श्वास, खाँसी, प्रतिश्याय, दाह, मोह, तृपा, ज्वर, वमन, हिचकी, शिरमे पीडा, मनमे भ्रम, श्रवणमे भ्रम तथा और भी बहुतसे वातके विकार उत्पन्न होते है ॥ २७-३० ॥

तच्चिकित्सा ।

उदावर्त्तिनमभ्यक्तं स्विन्नगात्रमुपाचरेत् । वर्त्तिकास्थापनस्वेदवस्तिरेचनकर्मभिः ॥ ३१ ॥

प्रथम उदावर्त्तरोगीको घृतादिसे अभ्यक्त करके स्वेदित करे । फिर वर्त्तिकास्थापनस्वेद, वस्तिकर्म और विरेचन कर्म करे ॥ ३१ ॥

त्रिवृत्सुधापत्रतिलादिशाकग्राम्यौदकानूपरसैयवान्नम् । अन्यैश्च सृष्टानिलमूत्रविड्भिरद्यात्प्रसन्नागुडसीधुपार्या ॥ ३२ ॥

निसोत, धूहरके पत्ते, तिलादि शाक, तथा ग्राम्य जलचर और अनूपदेशके जीवोंके मासका रस, यवान्न सुरामड और गुडसे बनाई हुई सीधुनामवाली मदिरा तथा अन्यान्य-वायु-मल और मूत्र निःसारक द्रव्य उदावर्त्त रोगमे सेवन करने चाहिएँ ॥ ३२ ॥

क्षारचित्रकहिंश्वम्लवेतसैर्भेदनैर्मता । यवागूः साधिता वापि तत्रारग्वधपल्लवैः ॥ ३३ ॥

जवाखार, चीता, हींग और अमलवेत-इनको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे उदावर्त्तरोग दूर होता है । अथवा उपर्युक्त औषधियोंके द्वारा अमलतासके पत्तोंके रसमे यवागू बनावे । इसको सेवन करनेसे उदावर्त्त रोग दूर होता है ॥ ३३ ॥

श्यामादि ।

श्यामादन्ती द्रवन्ती स्नुक् महाश्यामाऽमृता त्रिवृत् । सप्तलाशांखिनीश्वेता राजवृक्षः सतिलवकः ॥ काम्पिल्लकं करञ्जश्च हेमक्षीरीत्ययं गणः ॥ ३४ ॥ सर्पिस्तैलरजः क्वाथकल्केष्वन्यतमेषु च । उदावर्त्तोदरानाहविषगुल्मविनाशनः ॥ ३५ ॥

छोटीपीपल दती, द्रवती (छोटीदन्ती), बड़ी धूहर पीपल, गिलोय, निसोत, सातला, शंखाहुली, सफेद-फूलकी कटेरी, अमलतास, लोध, कवीला, करंजुआ और सत्यानासी कटेरी (चोक) इन सब औषधियोंके काथ और कल्कके द्वारा घृत अथवा तेलको पकाकर सेवन करनेसे वा उपर्युक्त औषधियोंका काथ बनाकर सेवन करनेसे यां केवल चूर्ण बनाकर सेवन करनेसे-उदावर्त्त, उदररोग, आनाह, विषविकार और गुल्म नष्ट होता है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

वल्मीकमृत्तिकामूलं करञ्जस्य फलत्वचम् । पिष्ट्वा मूत्रेण सिद्धार्थमुदावर्त्तप्रलेपनम् ॥ ३६ ॥

वाँवीकी मट्टी, करंजकी जड और करंजके फलकी छाल इनको एकत्र गोमूत्रमे पीसकर गरम करके लेप करनेसे उदावर्त्तरोग शमन होता है ॥ ३६ ॥

हरीतकीयवक्षारपीलूनि त्रिवृता तथा । घृतैश्चूर्णमिदं पेयमुदावर्त्तविनाशनम् ॥ ३७ ॥

हरड, जवाखार, पीलू और निसोत इनका चूर्ण करके घृतमे मिलाकर सेवन करनेसे उदावर्त्तरोग शमन होता है ॥ ३७ ॥

हिंशुकुष्ठवचास्वर्जि विडध्वेति द्विरुत्तरम् । मद्येन चाथ पिप्पल्या मूलकानां रसेन वा । भुक्त्वा स्निग्धमुदावर्त्तद्वातगुल्माद्विमुच्यते ॥ ३८ ॥

हींग, २ भाग, कूठ ४ भाग, वच ८ भाग, सजी १६ भाग और विड्भनक ३२ भाग लेवे । सबको

एकत्र पीसकर चूर्ण बना लेवे । इस चूर्णको मदि-
राके साथ अथवा पीपलामूलके काथके साथ पान
करे और इसपर स्निग्ध भोजन करे तो इससे उदा-
वर्त और वातगुल्म नष्ट होता है ॥ ३८ ॥

**हिंशुमाक्षिकसिन्धूर्तः पक्का वर्ति
सुनिर्मिताम् । घृताभ्यक्तां गुदे दद्या-
द्ददावर्तविनाशिनीम् ॥ ३९ ॥**

हीग, शहद और सैधानमक इनको एकत्र मिला-
कर खरल करके बर्ती बनावे । इस बर्तीको घीमे
सानकर गुदामे चढावे तो उदावर्तरोग दूर होता
है ॥ ३९ ॥

फलवर्ति ।

**मदनं पिप्पलीकुष्ठं वचा गौराश्च स-
र्षपाः । गुडक्षीरसमायुक्ता फलवर्तिः
प्रशस्यते ॥ ४० ॥**

मैफल, पीपल, कूठ, वच और सफेद सरसो-
इनको एकत्र पीसकर गुड और दूधमे मिलाकर बर्ती
बनावे । इन बर्तियोको गुदामे चढानेसे उदावर्तरोग
शमन होता है ॥ ४० ॥

**आगारधूमसिन्धूर्तैलयुक्ताम्लमूल-
कम् । क्षुणं निर्गुण्डिपत्रं वा स्वित्रे
पायौ क्षिपेद्बुधः ॥ ४१ ॥**

घरका धुआँ, सैधानमक, काँजी और तेल इन
सबको एकत्र पीसकर अथवा निर्गुण्डिके पत्तोको
उसीजकर उनका रस निचोडकर गुदामे डालनेसे
उदावर्तरोग शमन होता है ॥ ४१ ॥

नारायणचूर्ण ।

**खंडं पलं त्रिवृतासमसुपङ्कल्या कर्ष-
चूर्णनं सूक्ष्मम् । प्राग्भोजने समधु-
विडालपदकं लिहेत्प्राज्ञः ॥ ४२ ॥
एतद्गाढपुरीषे पित्तकफार्ते च विनि-
योज्यम् । स्वादुर्नृपयोग्योऽयं चूर्णो
नारायणो नाम्ना ॥ ४३ ॥**

उत्तम खंड ४ तोले, निसोतका चूर्ण १ तोला
और पीपलका चूर्ण १ तोला-इन सबको एकत्र पीस-

कर शहदमे मिलाकर भोजनसे पहले एक तोला
परिमाण खाय । इससे मलका बंधजाना और पित्त
कफकी पीडा तथा उदावर्त दूर होता है । यह नारा-
यण चूर्ण स्वादिष्ट है इसकारण राजाओके योग्य
है ॥ ४२-४३ ॥

गुडाष्टक ।

**सव्योषं पिप्पलीमूलं त्रिवृदन्ती स-
चित्रकम् । तच्चूर्णं गुडसंमिश्रं भक्षये-
त्कल्पमुत्थितः ॥ ४४ ॥ एतद्गुडाष्ट-
कं नाम बलवर्णाग्निवर्द्धनम् । शोथो-
दावर्तगुल्मघ्नं प्लीहपाङ्गामयापहम् ४५**

सोठ, मिरच, पीपल, पीपलामूल, निसोत, दंती
और चीता इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण बनावे
और सब चूर्णके बराबर गुड मिलाकर प्रातःकाल
भक्षण करे । यह गुडाष्टक-बल, वर्ण और जठरा-
ग्निको बढानेवाला है । तथा सूजन, उदावर्त, गुल्म,
प्लीहा और पाण्डुरोगको दूर करनेवाला है ४४॥४५॥

मूलकाद्यघृत ।

**मूलकं शुष्कमाद्रंश्च वर्षाभू पञ्चमू-
लकम् । अरेवतफलश्चाशु पक्त्वा
तेन घृतं पचेत् ॥ तत्पीयमानं शमये-
द्ददावर्तमसंशयम् ॥ ४६ ॥**

गौका घी १ सेर, जल ४ सेर, तथा कल्कके लिए
सूखी मूली, अदरक, पुनर्नवा, स्वल्पपंचमूल और
अमलतासका गूठ प्रत्येक दो दो तोले लेवे । सबको
एकत्र मिलाकर यथाविधिसे घृतको सिद्ध करे । इस
घृतको पान करनेसे उदावर्तरोग दूर होता है ॥ ४७ ॥

स्थिराद्यघृत ।

**स्थिरादिवर्गस्य पुनर्नवायाः शम्या-
कपूतीकरंजयोश्च । सिद्धः कषाये
द्विपलांशिकानां प्रस्थो घृतात्स्या-
त्प्रतिबद्धवाते ॥ ४७ ॥**

गौका घी २ सेर, जल ८ सेर और काथके
लिए स्थिरादि वर्गकी धौपधियाँ, पुनर्नवा, अमलतास,
दुर्गन्धकरंज और करंज-प्रत्येक आठ आठ तोले और

पाकके लिए जल ३२ सेर, शेष ८ सेर रक्खे ।
यथाविधिसे घृतको सिद्ध करे । यह घृत-वायुकी
वृद्धताको दूर करता है ॥ ४७ ॥

यन्महावज्रकं सर्पिर्गुलिमनां विहितं
च यत् । उदरिणामशेषेण तदुदाव-
र्त्तिने हितम् ॥ ४८ ॥ उदावर्त्तोदर-
गदे पक्वं सर्पिर्यदीरितम् । एतद्वित्रिच-
तुर्मासान्द्रद्याहुष्णांहुना भिषक् ॥ ४९ ॥


गुल्मरोगमें जो महावज्रघृत कहा है उसको सर्व
प्रकारके उदररोग और विशेष करके उदावर्त्त रोगमें
प्रयोग करना चाहिये । उदररोगमें जो घृत कहे हैं
वे सब दो या तीन अथवा चार मासे प्रमाण
गरम जलके साथ उदावर्त्तरोगमें प्रयोग करना
चाहिये ॥ ४८ ॥ ४९ ॥

वाट्वक्षीररसैः सेव्यं यच्च वातानु-
लोमनम् । वातघ्नैर्लवणाद्यैश्च रसा-
ढ्यैरन्नमाचरेत् ॥ ५० ॥

जौंका मांड, दूध, मांसरस इत्यादि जो पदार्थ
वातको अनुलोमन करनेवाले हैं वे सब तथा वात-
नाशक पदार्थ, लवण मिले पदार्थ और मांसरसयुक्त अन्न
ये सब उदावर्त्त रोगमें प्रयोग करने चाहिए ॥ ५० ॥

इति श्रीवङ्गसेने भापाटीकायां
उदावर्त्तनिदानचिकित्सा-
धिकार समाप्त ॥ ३० ॥

अथानाहरोगाधिकारः ।



निदान ।

आमं शकृद्वा निचितं क्रमेण भूयो
विबद्धं विगुणानिलेन । प्रवर्त्तमानं
न यथास्वमेनं विकारमानाहमुदा-
हरन्ति ॥ १ ॥

जिसमें आम या विष्टा क्रमसे संचित हो, दुष्ट
वायुसे बंधकर अथवा सूखकर अपने मार्गसे नहीं
निकले तब उसको वैद्य आनाहरोग कहते हैं ॥ १ ॥

तस्मिन्भवत्यामसमुद्भवे च तृष्णाप्र-
तिश्यायशिरोविदाहः । आमाशये
शूलमथो गुरुत्वं हृत्स्तम्भमुद्धारवि-
घातनञ्च ॥ २ ॥

आमसे उत्पन्न हुए आनाहरोगमें तृषा, प्रतिश्या-
य, मस्तकमें जलन, आमाशयमें शूल, शरीरमें
भारीपन, हृदयका जकडना और डकारका न आना
ये सब लक्षण होते हैं ॥ २ ॥

स्तम्भः कटिपृष्ठपुरीषमूत्रे शूलोऽथ
मूर्च्छा शकृतश्च छर्दिः । श्वासश्च प-
क्काशयजे भवन्ति तथा लसोक्तानि
च लक्षणानि ॥ ३ ॥

जो मलके संचयसे आनाह हुआ हो तो कमर,
पीठ, मल, मूत्र इनका अवरोध, शूल, मूर्च्छा, विष्टा-
मिली हुई वमन, श्वास और अलसक रोगमें जो
लक्षण कह आये हैं ये सब पक्काशयसे उत्पन्न
आनाह रोगमें होते हैं । अफारा तथा वायुका विघात
इत्यादि लक्षण होते हैं ॥ ३ ॥

असाध्यलक्षण ।

तृष्णादितं परिक्लिन्नं क्षीणं शूलैरुप-
द्रुतम् । शकृद्मन्तमतिमानुदाव-
र्त्तिनमुत्सृजेत् ॥ ४ ॥

तृषासे पीडित, क्लेशयुक्त, क्षीण, शूलसे दुःखित
और जो मलकी वमन करे ऐसे उदावर्त्तरोगीकी
वैद्य चिकित्सा नहीं करे ॥ ४ ॥

आनाहरोगकी चिकित्सा ।

आमोद्भवे वातमुपक्रमेत संसर्गभ-
क्तक्रमदीपनीयैः । विषूचिकायाम-
भिकीर्त्तितानि द्रव्याणि विरेचनि-
कानि चापि ॥ ५ ॥

आमजनित आनाहरोगमें वातके उपक्रमसे
चिकित्सा करे तथा भोजनके साथ दीपन पदार्थोंको
सेवन करावे और विषूचिकारोगमें जो औषधि कही
है तथा जो औषधि विरेचन करनेवाली हैं वे सब
इसमें प्रयोग करनी चाहिए ॥ ५ ॥

त्रिवृताद्यावटिका ।

त्रिवृद्धरीतकीश्यामा स्तुहीक्षीरेण
पेषयेत् । वटिका मूत्रपीतास्ताः श्रे-
ष्ठाश्चानाहभेदिकाः ॥ ६ ॥

निसोत, हरड और पीपल इनको थूहरके दूधमे
पीसकर गोलियां बना लेवे । इन गोलियोंको गोमू-
त्रके साथ पान करनेसे आनाहरोग दूर होता है
॥ ६ ॥

फलवर्ति ।

मदनं पिप्पलीकुष्ठं वचा गौराश्च स-
र्षपाः । गुडक्षीरसमायुक्ताः फलवर्तिः
प्रशस्यते ॥ ७ ॥ आनाहं च गुदे शूलं
कुक्षिशूलकमेव च । तस्य वातमुदा-
वर्तं योगिनानेन शाम्यति ॥ ८ ॥

मैतफल, पीपल, कूठ, वच और सफेद सरसो
इनको एकत्र पीसकर गुड और दूधमे मिलाकर बत्ती
बनावे । इस बत्तीको गुदामे प्रवेश करनेसे आनाह
रोग, गुदाशूल, कुक्षिशूल और उदावर्तरोग शमन
होता है ॥ ७ ॥ ८ ॥

रामठाद्यावर्ति ।

रामठधूमविड्व्योषगुडमूत्रविपाचि-
ता । गुदेऽगुष्ठसमा वर्तिर्विधेयाना-
हशूलनुत् ॥ ९ ॥

हींग, घरका धुआसा, विडनमक और सांठ,
मिर्च, पीपल, गुड इनको एकत्र गोमूत्रमे पकाकर
अगुठेकी समान बडी बनावे । इसको गुदामे चढा-
नेसे आनाह और शूलरोग दूर होता है ॥ ९ ॥

त्रिवृताद्यागुटी ।

त्रिवृत्कृष्णाहरीतक्यो द्विचतुष्पञ्च-
भागिकाः । गुटिका गुडतुल्यास्तु
विद्विवन्धगदापहाः ॥ १० ॥

निसोत २ भाग, पीपल ४ भाग और हरड ५
भाग लेवे और सबकी बराबर गुड लेवे । इन सबको
एकत्र मिलाकर गोली बनावे । यह गोली-मलवि-
बन्धरोगको दूर करती है ॥ १० ॥

त्रिकुटाद्यावर्ति ।

वर्तिस्रिकटुकसैन्धवसर्षपप्रहधूमकुष्ठ-
मदनफलेः । मधुनि गुडे वा पक्के
विदधातांगुष्ठपरिमाणा ॥ ११ ॥ व-
र्तिरियं दृष्टफला शनैः प्रणिहिता
गुदे घृताभ्यक्ता । आनाहोदावर्तश-
मनी जठरगुल्मनिवारणी ॥ १२ ॥

त्रिकुटा, सैधानमक, सरसो, घरका धुआसा,
मैतफल और कूठ इन सबको एकत्र पीसकर शहत
अथवा गुडेमें पकाकर अंगुठेकी बराबर बत्ती बना-
वे । इनको घामे चुपडकर गुदामे चढावे । यह
बत्ती आनाह, उदावर्त, उदररोग और गुल्मको दूर
करती है ॥ ११ ॥ ॥ १२ ॥

द्विरुत्तराहिंवादिचूर्ण ।

द्विरुत्तराहिंशुवचासकुष्ठं सुवर्चिक-
चैव विडङ्गचूर्णम् । सुखांबुनानाह-
विषूचिकार्तिहृद्रोगगुल्मोर्ध्वसमीरणे-
पु ॥ १३ ॥

हींग १ भाग, वच ३ भाग, कूठ ५ भाग, सजी
७ भाग और वायविडग-९ भाग लेवे । इन सबको
एकत्र पीसकर मंदोष्णजलके साथ पान करनेसे
विषूचिकारोग, हृदयरोग, गुल्म और ऊर्ध्वघातरोग
दूर होते हैं ॥ १३ ॥

हिंवाद्यचूर्ण ।

हिंशूग्रगन्धाविडशुण्ठयजाजीहरीत-
कीपुष्करमूलकुष्ठम् । यथोत्तरं भाग-
विवृद्धमेतत्प्लीहोदरानाहविषूचिकासु
॥ १४ ॥

हींग १ भाग, वच १ भाग, विडनमक ३ भाग,
सांठ ४ भाग, जीरा ५ भाग, हरड ६ भाग, पोह-
करमूल ७ भाग और कूठ ८ भाग लेवे । सबको
एकत्र पीसकर चूर्ण कर लेवे । इस चूर्णको सेवन
करनेसे प्लीहा, उदररोग, आनाह और विषूचिका-
रोग शमन होता है ॥ १४ ॥

वचाद्यचूर्ण ।

वचाभयाच्चित्रकयावशूकान्सापिप्प-
लीकातिविषान्सकुंष्ठान् । उष्णांबु-
नानाहाविमूढवातान्पत्वा जयेदाशु
रसौदनाशी ॥ १५ ॥

वच, हरड, चोता, जवाखार, पीपल, अतोस और
कूठ, सबको एकत्र पीसकर चूर्ण बनावे । इम चूर्णको
मंदोष्णजलके साथ सेवन करे और इसपर मांसरसके
साथ भात खाये तो यह आनाह और मूढवातको
दूर करता है ॥ १५ ॥

आनाहेऽपि प्रयुञ्जीत उदावर्त्तह-
रीं क्रियाम् ॥

उदावर्त्तरोगमें जो चिकित्सा कही है वह आनाह
रोगमें भी प्रयोग करनी चाहिए ।

इति श्रीवज्रसेनं भापाटीकायाम्
आनाहनिदानचिकित्सा-
धिकार समाप्त ॥ ३१ ॥

अथ गुल्मरोगाधिकार ।

दुष्टा वातादयोऽत्यर्थं मिथ्याहारवि-
हारतः । कुर्वन्ति पञ्चधा गुल्मं कोष्ठा-
न्तर्ग्रन्थिरूपिणम् ॥१॥ तस्य पञ्चविधं
स्थानं पार्श्वहृद्दस्तिनाभयः ॥ २ ॥

मिथ्या आहार और मिथ्या विहार इन कारणोंसे
वातादि दोष दूषित होकर कोठमें पांचप्रकारका ग्रन्थि-
रूप गुल्मरोग उत्पन्न करते हैं । इनमें पसली, हृदय,
नाभि और वास्ति इन स्थानोंमें गुल्मरोग उत्पन्न
होता है ॥ १ ॥ २ ॥

गुल्मका सामान्यरूप ।

हृद्दस्त्योरन्तरे ग्रन्थिः सञ्चारी यदि
वाऽचलः । वृत्तश्चयोपचयवान्स गुल्म
इति कीर्त्तितः ॥ ३ ॥

हृदय और वास्ति इनके बीचमें जो स्थिर या
चलायमान, गोल, कभी घटे कभी बढे ऐसी ग्रन्थि
हो तो उसको गुल्म कहते हैं ॥ ३ ॥

गुल्मकी संप्राप्ति ।

सव्यस्तेर्जायते दोषैः समस्तरपि चो-
च्छ्रितैः । पुरुषाणां तथा स्त्रीणां ज्ञे-
यो रक्तेन चापरः ॥ ४ ॥

कुमित हुए पृथक् २ वातादि दोषोंसे तीनप्रकारका
और एक सन्निपातका ऐसे सब मिलाकर पुरुष और
स्त्रियोंके गुल्मरोग चार प्रकारक होता है । परन्तु
स्त्रियोंके रक्तसे उत्पन्न होनेवाला एक पाँचवाँ गुल्म
और होता है । क्षोरपाणिक मतसे द्वन्द्वज गुल्म भी
होता है, रक्तगुल्म स्त्रियोंकेही होता है, पुरुषोंके नहीं
होता परन्तु धातुरूप रक्तजगुल्म स्त्री और पुरुष
दोनोंके हाता है ॥ ४ ॥

गुल्मका पूर्वरूप ।

उद्गारबाहुल्यपुरीषबन्धस्तृप्त्यक्षम-
त्वान्त्रविकूजनानि । आटोपमाधमा-
नमपाकशक्तिरासन्नगुल्मस्य वदन्ति
चिह्नम् ॥ ५ ॥

डकारका अधिक आना, मलरोध, अन्नमें अरुचि,
सामर्थ्यका नाश, आँतोका कूजना, पेटमें गुडगुड
शब्द होना, अकारा, पेटका जकडना और मन्दाग्नि
ये लक्षण हों तो समझना चाहिए कि गुल्मरोग उत्पन्न
होगा ॥ ५ ॥

गुल्मके साधारण लक्षण ।

अरुचिः कृच्छ्रविण्मूत्रं वातश्चान्त्र-
विकूजनम् । आनाहश्चोर्ध्ववातत्वं
सर्वगुल्मेषु लक्षणम् ॥ ६ ॥

अरुचि, मल और मूत्रका कष्टसे उतरना, वातसे
आँतोका कूजना, पेटका मल बँध जाना और वायुकी
ऊर्ध्वगति ये लक्षण साधारणतः सर्वप्रकारके गुल्म-
रोगोंमें होते हैं ॥ ६ ॥

गुल्मके कारण और लक्षण ।

रूक्षान्नपात्रं विषमगतिमात्रं विचेष्ट-
नं वेगविनिग्रहश्च । शोकाभिघातो-
ऽतिमलक्षयश्च निरन्नता चानिलगु-

लम्हेतुः ॥ ७ ॥ यत्स्थानसंस्थानरु-
जाविकल्पं विद्वातसंगं गलवक्रशो-
षम् । श्यावारुणत्वं शिशिरज्वरश्च
हृत्कुक्षिपार्श्वसशिरोरुजश्च ॥ ८ ॥
करोति जीर्णेत्यधिकं प्रकोपं भुक्ते
मृदुत्वं समुपैति यश्च । वातातसगुल्मो
न च तत्र रूक्षं कृषायतिकं कटु
चोपशेते ॥ ९ ॥

रूक्षअन्न, रूक्षपान, विषम और अधिक प्रमाणमें
भोजन विरुद्ध घेष्टा, मलमूत्रादिके वेगोका रोध, जोक,
अभिघात, विरेचनादिसे मलका क्षय और उपवास ये
सब वातगुल्मके कारण हैं । जो गुल्म कभी हृदय,
कभी कुक्षि, कभी पार्श्व, कभी कंधा और कभी
वस्तिमे चला जाय तथा कभी लम्बा, कभी गोल, कभी
मोटा, कभी छोटा होजाय तथा उसमे कभी बहुत
पीडा, कभी थोडी पीडा हां, कभी सुई चुभाने
सराखी, कभी कतरनेकेसी, मल और अधोवायुका
अवरोध हो, कण्ठ और मुख सुखजाय, शरीरका रंग
नीला अथवा लाल हो जाय, शीत लगकर ज्वर आ
जाय, हृदय, कोख, पसली, कन्धा और मस्तकमे
पीडा हो, भोजनके जीर्ण होनेपर अधिक पीडा हो
और भोजन करनेके पश्चात् नरस होजाय ये वात-
गुल्मके लक्षण है । इसमें रूखे, कपूले, कडवे और
चरपरे पदार्थोको सेवन करानेसे रोगाको सुख नही
होता है ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥

वातगुल्मकी चिकित्सा ।

प्रागेव वातिके गुल्मे सुस्निग्धं स्वे-
दितं नरम् । रेचितं स्नेहरेकैश्च नि-
रूहैः सानुवासनैः ॥ उपाचरेद्विष-
कप्राज्ञो मात्राकालविवेकतः ॥ १० ॥

वातगुल्मरोगीको प्रथम घृतादिकसे स्निग्ध करके
पसीने निकलवावे तथा स्निग्धविरेचन, निरूहवस्ति
और अनुवासनवस्ति देकर फिर समय मात्राको
विचारकर औषधि प्रयोग करे ॥ १० ॥

मातुलुङ्गरसो हिङ्गु दाडिमं विडसै-
न्धवम् । सुरामण्डेन दातव्यं वात-
गुल्मरुजापहम् ॥ ११ ॥

विजैरेनीवृका रस, हींग, अनार, विडनमक और
सैधानोन इनको एकत्र पीसकर मदिराके मांडके साथ
पान करानेसे वातगुल्मरांग दूर होता है ॥ ११ ॥

नागरार्द्धपलं पिष्टं द्वे पले चित्रकस्य
च । तिलस्यैकं गुडपलं क्षीरेणोष्णेन
पाययेत् । वातगुल्ममुदावर्त्त योनि-
शूलश्च नाशयेत् ॥ १२ ॥

सोठ २ तोले, चीता ८ तोले, तिल ४ तोले और
गुड ४ तोले सबको एकत्र पीसकर मन्शेणदूधके
साथ पान करावे । यह—वातगुल्म उदावर्त्त और योनि-
शूलको नष्ट करता है ॥ १२ ॥

हिङ्गुपञ्चक ।

हिङ्गुसौवर्चलं शुण्ठी दाडिमं साम्ल-
वेतसम् । श्वासहृद्रोगशमनमिदं
स्याद्विङ्गुपञ्चकम् ॥ १३ ॥

हींग, कालानमक, सोठ, अनार और अमलवेत
इन सबको एकत्र पीसकर सेवन करनेसे—श्वास,
हृदयरोग, विशेषकरके गुल्मरोग दूर होता है ॥ १३ ॥

स्वर्जिका कुष्ठसहिता क्षारः केतकि-
जोऽपि वा । पीतस्तैलेन शमयेद्गुल्मं
पवनसम्भवम् ॥ १४ ॥

सज्जी, कूठ और केतकीका खार इनको एकत्र
पीसकर तेलके साथ पान करनेसे वातजनित गुल्म
शमन होता है ॥ १४ ॥

पिबेदैरण्डतैलं वा वारुणीमण्डमि-
श्रितम् । तदेव तैलं पयसा वातगु-
ल्मी पिबेन्नरः ॥ १५ ॥

अथवा अण्डीके तेलमे मदिराका मण्ड डालकर
पान करनेसे वा अण्डीके तेलमे दूध डालकर सेवन
करनेसे वातगुल्म शमन होता है ॥ १५ ॥

पञ्चमूलकषायेण सक्षारेण शिला-
जतु । पिबेत्तस्य प्रयोगेण वातगुल्मा-
द्विमुच्यते ॥ १६ ॥

पचमूलके काथमें जवारार और शिलाजीत डालकर पान करनेसे वातगुल्म जमन होता है ॥ १६ ॥

वातगुल्मप्रतीकारे प्रकुप्यति यदा कफः । शस्तमुल्लेखनं तत्र चूर्णाद्याश्च कफापहाः ॥ १७ ॥

वातगुल्म पर इस प्रकार उपचार करनेसे जो कफ कुपित हो तो लेखन और कफनाशक चूर्णादि प्रयोग करे ॥ १७ ॥

यदि कुप्यति वा पित्तं विरेकस्तत्र भेषजम् । दोषघ्नैरप्यशान्तौ च गुल्मे शोणितमोक्षणम् ॥ १८ ॥

और जो पित्त कुपित हो तो विरेचन देवे, यदि ऐसा करनेसे दोषोंकी शांति नहीं हो तो रुधिर मोक्षण करावे ॥ १८ ॥

त्र्यृषणाद्यवृत ।

त्र्यृषणं त्रिफला धात्री विडङ्गं चव्य-चित्रकैः । कल्कैरेतैर्घृतं सिद्धं सक्षीरं वातगुल्मनुत् ॥ १९ ॥

सोठ, मिरच, पीपल, त्रिफला, आमले, वायविडग और चीता इनके कल्कके द्वारा दूधमें घृतको सिद्ध करे । यह घृत-वातगुल्मको दूर करता है ॥ १९ ॥

हृषुषाद्यवृत ।

हृषुषाव्योषपृथ्वीकाचव्यचित्रकसैन्ध-वैः । साजाजीपिप्पलीमूलदीप्यकै-र्विपचेद्वृतम् ॥ २० ॥ सकोलमूल-करसं सक्षीरं दधि दाडिमम् । तत्परं वातगुल्मघ्नं शूलानाहविमोक्षणम् ॥ २१ ॥ योन्यशौग्रहणीदोषश्वास-कासारुचिज्वरान् । पार्श्वहृद्वस्तिशूलश्च घृतमेतद्रचपोहति ॥ २२ ॥ पञ्चा-दीनि च यत्र स्युर्द्रव्याणि स्नेहस-न्निधौ । तत्र स्नेहसमान्याहुरर्वा-कस्याच्च चतुर्गुणम् ॥ २३ ॥

हाऊवेर, त्रिकुटा, वडी इलायची, चव्य, चीता, सैधानमक, जीरा, पीपलामूल और अजमोद प्रत्येक

औपधिका कल्क दो दो तोले, वेरका काथ ४ सेर, मूलीका रस ४ सेर, दूध, ४ सेर, दही ४ सेर, अनारका रस ४ सेर और उत्तम गौका घी ४ सेर लेवे । सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिसे घृतको सिद्ध करे । यह घृत-वातगुल्म, गूल, आनाह, ववासीर, योनिदोष, श्वास, खॉसी, अरुचि, ज्वर, पार्श्वशूल, हृदयशूल और वस्तिशूलको नष्ट करता है । जहाँ पांचो द्रव्य स्नेहके समीप हो वहाँ स्नेहके समान लेना और जहाँ स्नेहसे पहले हो वहाँ द्रव्य चतुर्गुण होने चाहिये ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥

चित्रकाद्यवृत ।

चित्रकव्योषसिन्धूत्थपृथ्वीकाचव्य-दाडिमैः । दीप्यकग्रन्थिकाजाजीह-पुषाधान्यकैः समैः ॥ २४ ॥ दध्यार-नालबदिरशूलकस्वरसैर्घृतम् । तत्पि-वेद्वातगुल्माग्निदौर्बल्याटोपशूलनुत् ॥ २५ ॥

चीता, त्रिकुटा, सैधानमक, इलायची, चव्य, अनार, अजमोद, पीपलामूल, जीरा, हाऊवेर, और धनियाँ प्रत्येक औपधिका कल्क दो दो तोले, दही, कॉजी, वेरका काथ और मूलीका स्वरस ये प्रत्येक दो दो सेर और उत्तम गौका घी १ सेर लेकर विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे । इस घृतको सेवन करनेसे वातगुल्म, मदाग्नि, आटोप और गूल नष्ट होता है ॥ २४ ॥ २५ ॥

हिंम्बाद्यवृत ।

हिंगुसौवर्चलव्योषविडदाडिमभाष-कैः । पुष्कराजाजिधान्याम्लवेतस-क्षारचित्रकैः ॥ २६ ॥ शटीवचाजग-न्धैलास्वरसैश्च विषाचितम् । शूला-नाहहरं सर्पिर्दधा चानिलगुल्मि-नाम् ॥ २७ ॥

हींग, कालानमक, त्रिकुटा, विड नमक, अनार, उडद, पोहकरमूल, जीरा, धनियाँ, अमलवेत, जवा-खार, चीता, कचूर, वच, वनतुलसी और इलायची इनके स्वरसमें दहीके द्वारा घृतको पकावे । यह घृत-शूल, आनाह और वातगुल्मको दूर करता है ॥ २६ ॥ २७ ॥

पथ्य ।

तित्तिरांश्च मयूरांश्च कुक्कुटांश्चैव वर्ति-
कान् । सर्पिः शालिप्रसन्नांश्च वात-
गुल्मे प्रयोजयेत् ॥ २८ ॥

तीतर, मोर, मुरगा और वत्तक इनका मांस, वी, शालिचावल और प्रसन्नानामवाली मदिरा अथवा सुरामण्ड इन सबको वातगुल्ममे प्रयोग करना चाहिए ॥ २८ ॥

पित्तगुल्मके कारण ।

कट्वम्लतीक्ष्णोष्णविदाहिरूक्षक्रोधा-
तिमद्यार्कहुताशसेवा । आमाभि-
घातो रुधिरं प्रदुष्टं पैतस्य गुल्मस्य
निदानमुक्तम् ॥ २९ ॥ ज्वरः पिपा-
सा वदनाङ्गरागः शूलं महज्जीर्यति
भोजने च । स्वेदो विदाहो व्रणवच्च
गुल्मः स्पर्शासहं पैत्तिकगुल्मरूपम् ३०

कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण, दाहकारक और रुखे-
पदार्थोंके सेवन करनेसे, क्रोध, अत्यन्त मद्यपान,
धूप और अन्निको अतिशय सेवन करनेसे, विदग्ध
अजीर्णसे, लकडी आदिकी चोटके लगनेसे और
रुधिरके दूषित होनेसे पित्तगुल्म उत्पन्न होता है ।
इसमे ज्वर, तृषा, मूख और शरीरमें अरुणता, अन्नके
पचनेके समय अत्यंत शूलकी पीडा, पसीना, विदाह
और व्रणके समान स्पर्शका न सह सकना ये सब
लक्षण होते है, इसको पित्तगुल्म कहते है ॥ २९ ॥ ३० ॥

पित्तगुल्मकी चिकित्सा ।

काकोल्यादिमहातिक्तवासाद्यैः पि-
त्तगुल्मिनम् । स्नेहितं संस्रयेत्पश्चाद्यो-
जयेद्दत्तिकर्मणा ॥ ३१ ॥

पित्तगुल्ममे प्रथम रोगीको काकोल्यादि घृत, महा-
तिक्तघृत और वासाद्यघृतके द्वारा स्निग्ध करके
विरेचन देवे पश्चात् वस्तिकर्म करे ॥ ३१ ॥

विरेकाय सिनायुक्तं कम्पिहं वा स-
माक्षिकम् । द्राक्षाभयारसं गुल्मे
पैत्तिके सगुडं पिबेत् ॥ ३२ ॥

कवीलेके चूर्णको मिश्री मिलाकर अथवा शहद
मिलाकर विरेचनके लिये सेवन करे । अथवा दाख
और हरदके काथमें गुड मिलाकर सेवन करे ॥ ३२ ॥

मधुकं चन्दनं द्राक्षा पयसा मधुकं
मधु । पिबेत्तण्डुलतोयेन पित्तगुल्मो-
पशान्तये ॥ ३३ ॥

मुलैठी, चंदन और दाख इनको दूधके साथ सेवन
करनेसे अथवा मुलैठी और शहद इनको चावलोंके
जलके साथ पान करनेसे पित्तगुल्मरोग शमन होता
है ॥ ३३ ॥

पक्वगुल्मलक्षण ।

गुरुः कठिनसंस्थानो गूढमांसोत्तरा-
श्रयः । अविवर्णः स्थिरश्चैव स पक्वो
गुल्म इष्यते ॥ ३४ ॥

भारी, कठिन, अच्छेप्रकारसे स्थित हुआ, गूढ,
मांसमें प्राप्त हुआ, घुरे रंगका और स्थिर ऐसा गुल्म
पक्व जानना ॥ ३४ ॥

दाहशूलादिसंक्षोभस्वप्ननाशाऽह-
चिज्वरैः । विदग्धमानं जानीयाद्गु-
ल्मं तमुपनाहयेत् ॥ ३५ ॥

दाह और शूलादिकसे क्षोभित हुआ, निद्राका
नाश, अरुचि और ज्वरसे दाहको प्राप्त हुआ ऐसे
गुल्मको जानकर उपनाह स्वेद आदि करे ॥ ३५ ॥

पक्के तु व्रणवत्कार्यं व्यथशोधनरोप-
णम् । स्वयमूर्ध्वमधो वापि स चेदो-
षः प्रपद्यते ॥ ३६ ॥ द्वादशाहमुपेक्षत
रक्षन्वैद्यैरुपद्रवान् । परञ्च शोधनं
सर्पिः शुद्धे समधुतित्तकम् ॥ ३७ ॥

पक्व गुल्ममे व्रणके समान चीरना, शोधन और
रोपण करना आदि विधि करनी चाहिए । जो अपने
आपही ऊपर और नीचे दोष प्राप्त हों तो अन्य उप-
द्रवोंकी रक्षा करके बारह दिन पर्यंत उपेक्षा करे ।
पश्चात् शोधन करनेवाले घृतप्रयोग करे फिर तित्त
औपधियोके साथ शहद सेवन करावे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

त्रायमाणाद्यधृत ।

जले दशगुणे साध्यं त्रायमाणाचतु-
ष्पलम् । पञ्चभागस्थितं पूतं कल्कैः
संयोज्य कार्ष्णिकैः ॥ ३८ ॥ रोहिणी-
कटुकामुस्तत्रायमाणादुरालभाः ।
द्राक्षातामलकीवीराजीवन्तीचन्दनो-
त्पलैः ॥ ३९ ॥ रसस्यामलका-
नाञ्च क्षीरस्य च घृतस्य च । एता-
नि पृथगष्टाष्टौ दत्त्वा सम्यग्विपाच-
येत् ॥ ४० ॥ पित्तगुल्मं रक्तगुल्मं वी-
सर्पं पैत्तिकं ज्वरम् । हृद्रोगं कामलां
कुष्ठं हन्यादेतद्घृतोत्तमम् ॥ ४१ ॥

चार पल त्रायमाणको लेकर दशगुणे जलमें पका-
वे । जब पकते पकते जल पांचवा भाग बाकी रह
जाय तब उतार कर छान लेने । इस काथमें मांस-
रोहिणी, कुटकी, नागरमोथा, त्रायमाण, धसासा,
दाख, मुईआमला, शतावर, जीवन्ती, चन्दन और
कमल प्रत्येक औषधिका कल्क एक एक तोला,
आमलोका स्वरस ८ पल, दूध ८ पल और उत्तम
गौका घी ८ पल लेवे । सबको एकत्र मिलाकर
यथाविधिसे घृतको पकावे । यह उत्तम घृत-पित्त-
गुल्म, रक्तगुल्म, विसर्प, पित्तज्वर, हृदयरोग,
कामला और कुष्ठको नष्ट करता है ॥ ३८-४१ ॥

द्राक्षाद्यधृत ।

द्राक्षां मधुकर्जूरं विदारीं सशता-
वरीम् । परूषकाणि त्रिफलां साध-
येत्पलसंमिताम् ॥ ४२ ॥ जलाढके
पादशेषे रसमामलकस्य च । घृताभि-
क्षुरसं क्षीरमभयाकल्कपादिकम् ४३ ॥
साधयेत्तु घृतं सिद्धं शर्कराक्षौद्रपा-
दिकम् । प्रयोगापित्तगुल्मघ्नं सर्वपि-
त्ताधिकारनुत् ॥ ४४ ॥

द्राख, मुलैठी, खजूर, विदारीकन्द, शतावर, फालसे
और त्रिफला ये प्रत्येक औषधि चार २ तोले लेकर
एक आढक जलमें पकावे । जब पकते २ जल चौथाई
भाग बाकी रहजाय तब उतार कर छान लेवे फिर

इस काथमें आमलोका स्वरस, घी, ईखका रस, दूध
और हरडोका कल्क प्रत्येक काथसे चौथाई भाग डाल
कर विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे इस घृतमे चतुर्थांश
भाग खांड और शहद मिलाकर सेवन करे तो इससे
पित्तगुल्म और सर्वप्रकारके पित्तके विकार दूर होते
हैं ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

पथ्य ।

शालिगोछागडुग्धश्च पटोलं मिश्रितं
घृतम् । द्राक्षापरूषकं धात्री खर्जूरं
दाडिमं सिता । पथ्यार्थं पैत्तिके
गुल्मे बलातैलश्च योजयेत् ॥ ४५ ॥

शालिचावलांका भात, गौ और वरुंकीका दूध, पर-
वल, घी, दाख, फालसे, आमले, खजूर, अनार
और मिश्री ये सब पथ्य है । खिरैटीका तेल भी पित्त-
गुल्ममे पथ्यके लिये प्रयोग करना चाहिए ॥ ४५ ॥

कफगुल्मके लक्षण ।

शीतं गुरुस्निग्धमचेष्टनञ्च संपूरणं
प्रस्वपनं दिवा च । गुल्मस्य हेतुः
कफसम्भवस्य सर्वस्तु दृष्टो निचया-
त्मकस्य ॥ ४६ ॥ स्तैमित्यशीतज्व-
रगात्रसादहृल्लासकासारुचिगौरवाणि ।
शैत्यं रुगलपा कठिनौन्नतत्वं गुल्मस्य
रूपाणि कफात्मकस्य ॥ ४७ ॥

शीतल, भारी और चिकने पदार्थोंका सेवन,
विलकुल परिश्रम नहीं करना और दिनमे सोना
इत्यादि कागणोमे कफसम्बन्धी ये सब कफ एकत्र
होकर जो गुल्म होता है वही कफगुल्मका हेतु है ।
शरीर गीले कपड़ेसे ढके हुएके समान मालूम हो,
शीतज्वर, अंगोका टूटना, अंगगलानि, उबकाई, खौसी,
अरुचि, भारीपन, शीतका लगना, अल्पपीडा, गुल्म,
कठिन और ऊचा हो ये सब कफगुल्मके लक्षण
हैं ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

कफगुल्मकी चिकित्सा ।

स्नेहोपनाहनस्वेदतीक्ष्णस्नानवस्ति-
भिः । योगैश्च वातगुल्मोक्तैः श्लेष्म-
गुल्ममुपाचरेत् ॥ ४८ ॥

कफजगुल्ममे स्नेह कर्म, उपनाहस्वेद, तीक्ष्ण वि-
रेचन, वस्ति कर्म और अन्यान्य वातगुल्ममें कहे
प्रयोग सेवन करने चाहिए ॥ ४८ ॥

तिलैरण्डातसीबीजसर्षपैः परिलिप्य
च । श्लेष्मगुल्ममयःपात्रैः सुखोष्णैः
स्वेदयेद्विषकृ ॥ ४९ ॥

तिल, अंडके बीज, अलसी और सरसो इन सबको
एकत्र पीसकर कफगुल्मके ऊपर लेप करे । फिर उस
लोहेके पात्रको अग्निसे गरम करके सुहाता २ कफ-
गुल्मरोगीको स्वेद देवे ॥ ४९ ॥

पञ्चमूलीशृतं तोयं पुराणं वारुणी-
रसम् । कफगुल्मे पिबित्काले जीर्ण
माध्वीकमेव च ॥ ५० ॥

पंचमूलके काथमे पुराना वारुणीका रस डालकर
पीनेसे अथवा पुरानी माध्वीक नामवाली मदिराको
पीनेसे कफगुल्म नष्ट होता है ॥ ५० ॥

यवानीचूर्णितं तक्रं विडेन लवणी-
कृतम् । विबेत्सन्दीपनं वातमूत्रवर्चो-
ऽनुलोमनम् ॥ ५१ ॥

अजवायनके चूर्णको तक्रमे डालकर और थोडा
सा विडनमक मिलाकर पान करनेसे अग्नि दीपन
होती है तथा यह वायु, मूत्र और मलको अनुलोमन
करता है ॥ ५१ ॥

क्षीरषट्पलघृत ।

पिप्पली पिप्पलीमूलं चव्यचित्रक-
नागरैः । पलिकैः सयवक्षारैर्वृतप्रस्थं
विपाचयेत् ॥ ५२ ॥ क्षीरप्रस्थेन त-
त्सर्पिर्हन्ति गुल्मं कफात्मकम् ।
ग्रहणीपाण्डुरोगघ्नं प्लीहकासज्वराप-
हम् ॥ ५३ ॥

पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, सोठ और जवा-
खार ये प्रत्येक औषधि चार चार तोले, उत्तम गौका
घी एक प्रस्थ और दूध एक प्रस्थ लेवे । विधिपूर्वक
घृतको पकावे । यह घृत-कफजनित गुल्म, संग्रहणी,
पाण्डुरोग, प्लीहा, खाँसी और ज्वरको नष्ट करता
है ॥ ५२ ॥ ५३ ॥

व्योपाद्यघृत ।

सव्योषक्षारलवणं दशमूलशृतं घृत-
म् । कफगुल्मं जयत्याशु सहिगुवि-
डदाडिमम् ॥ ५४ ॥

त्रिकुटा, जवाखार, सैधानमक, हींग, विडनमक
और अनार इन औषधियोंके कल्क और दशमूलके
काथमें घृतको पकावे । यह घृत-कफजनित गुल्मको
नष्ट करता है ॥ ५४ ॥

भल्लातकाद्यघृत ।

भल्लातकानां द्विपलं पञ्चमूलपलो-
न्मितम् । साध्यं विदारिगन्धाढ्य-
मापोथ्य सलिलाढके ॥ ५५ ॥ पा-
दावशेषे पूते च पिप्पली नागरं वध्वा ।
विडङ्गं सैन्धवं हिंशु यावशूकं विडं
शटी ॥ ५६ ॥ चित्रकं मधुकं रास्ना
पिष्ट्वा कर्षसमान्निषकृ । प्रस्थञ्च पयसो
दत्त्वा घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ५७ ॥
एतद्भल्लातकं सर्पिः कफगुल्महरं प-
रम् । प्लीहापाण्डुरोगघ्नं श्वासग्रहणीका-
सरोगतुत् ॥ ५८ ॥

भिलावे ८ तोले, पंचमूलकी पृथक् २ औषधि
चार चार तोले और विदारीकंद ४ तोले लेवे, इन
सबको एक आढक जलमें पकावे । जब पकते २
जल चौथाई भाग शेष रह जाय तब उतार कर छान
लेवे । फिर इस काथमे पीपल, सोठ, बच, वायवि-
डंग, सैधानमक, हींग, जवाखार, विडनमक, कचूर,
चीता, मुलैठी और रायसन प्रत्येक औषधिका
कल्क एक एक तोला, दूध १ प्रस्थ और उत्तम गौ-
का घी १ प्रस्थ लेवे । सबको मिलाकर यथाविधिसे
घृतको सिद्ध करे । यह भल्लातकघृत-कफगुल्मको
नष्ट करनेवाला तथा प्लीहा, पाण्डुरोग, श्वास, संग्र-
हणी और खाँसीको दूर करता है ॥ ५५ ॥ ५६ ॥
॥ ५७ ॥ ५८ ॥

मिश्रकस्नेह ।

त्रिवृता त्रिफला दन्ती दशमूलं प-
लोन्मितम् । जले चतुर्गुणे पक्त्वा

चतुर्भागे स्थिते रसे ॥ ५९ ॥ सर्पिरैर-
डजं तैलं क्षीरं तत्र प्रयोजयेत् । सस्नि-
ग्धो मिश्रकः स्नेहः सक्षौद्रः कफगुल्म-
नुत् ॥ ६० ॥ कफवातविकारेषु कुष्ठ-
प्लीहोदरेषु च । प्रयोज्यो मिश्रकः
स्नेहो योनिशूले तथाधिके ॥ ६१ ॥

निसोत, हरड, बहेडा, आमला, दंती और दग्-
मूलकी सन्पूर्ण औषधियां प्रत्येक चार चार तोले
लेकर चौगुने जलमे पकावे । जब पककर जल
चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेवे ।
फिर इस काथमें घी, अण्डीका तेल और दूध डाल-
कर पकावे । जब पकते पकते केवल घी और
अण्डीका तेल बाकी रह जाय तब उतार लेवे । इस
मिश्रक स्नेहमे शहद मिलाकर सेवन करनेसे कफ-
गुल्मको नष्ट करता है । यह कफगुल्म, कफ और वातके
विकार, कुष्ठ, प्लीहा, उदररोग और विशेष कर योनि-
शूलमें प्रयोग करना चाहिए ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥

दंतीहरितक्यवलेह ।

जलद्रोणे विपक्तव्या विंशतिः पञ्च
चाभयाः । दन्त्याः पलानि तावन्ति
चित्रकस्य तथैव च ॥ ६२ ॥ अष्टभा-
गावशेषन्तं रसं पूतमधिश्रयेत् । द-
न्तीसमं गुडं पूतं दद्यात्तत्राभयाश्च
ताः ॥ ६३ ॥ तैलार्धकुडवं चैवं त्रिवृ-
तायाश्चतुष्पलम् । चूर्णितं चार्द्ध-
पलिकं पिप्पली विश्वभेषजम् ॥ ६४ ॥
तत्साध्यं लेहवच्छीते तस्मिन्तैलसमं
मधु । क्षिपेच्चूर्णं पलत्रैकं त्वगोलापत्र-
केसरात् ॥ ६५ ॥ ततो लेहं पलं ली-
ढ्वा जग्ध्वा चैकां हरीतकीम् । सुखं
विरिच्यते स्निग्धो दोषप्रस्थमनामयः
॥ ६६ ॥ गुल्मं श्वयथुमर्शांसि पांडु-
रोगमरोचकम् । हृद्रोगग्रहणीदोषा-
न्कामलां विषमज्वरान् । गुल्मं प्लीहा-
नमानाहमेतान् हन्त्युपसोविता ॥ ६७ ॥

पोटलीमे बंधीहुई उत्तम हरडें २५ पल, दंतीकी
जड़ २५ पल, और चीतेकी जड़ २५ पल लेकर १

द्रोण जलमे पकावे । जब पककर आठवां भाग जल
बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेवे और पोट-
लीको खोलकर हरडोको निकाल लेवे । पश्चात् इस
काथमें २५ पल गुड, काठेमेकी निकाली हुई सब
हरडें सोलह तोले, निसोतका चूर्ण, सोलह तोले तेल,
पीपल और सोठ दो २ तोले, सबको एकत्र मिला
अवलेह बनावे । जब शीतल होजाय तब शहद १६
तोले और चातुर्जातकका चूर्ण चार तोले मिला
देवे । प्रतिदिन चार तोले अवलेह और इसमेकी
एक हरड सेवन करे तो इससे कोठा स्निग्ध होकर
सुखपूर्वक दस्त होने लगते है । तथा गुल्म, सूजन,
बवासीर, पाण्डुरोग, अरुचि, हृदयरोग, संग्रहणी,
कामला, विषमज्वर, गुल्म, प्लीहा और आनाह रोग
ये सब दूर होते है ॥ ६२-६७ ॥

पथ्य ।

कुलित्थाक्षीर्णशालीश्च षष्टिकान्यव-
जाङ्गलानि । मद्यतैलघृतं तक्रं कफगु-
ल्मे प्रयोजयेत् ॥ ६८ ॥

कुलथी, पुराने शालिचावल, सांठीचावल, जौ,
जांगलप्रदेशके जीवोका मांस, मदिरा, तेल, घृत और
तक्र ये सब कफजगुल्ममे प्रयोग करने चाहिए ॥ ६८ ॥

द्वन्द्वजगुल्म ।

निमित्तलिङ्गानुपलभ्य गुल्मे संसर्गजे
दोषबलाबलञ्च । व्यामिश्रालिङ्गानु-
पलभ्य गुल्मांस्त्रीनादिशेदौषधकल्प-
नार्थम् ॥ ६९ ॥

द्वन्द्वजगुल्ममें निमित्त, लक्षण और दोषोंका
बलावल विचारकर औषधि करनेके लिए वात तथा
पित्तसे उत्पन्न हुए, वायु और कफसे उत्पन्न हुए और
पित्त तथा कफसे हुए इस प्रकार और भी तीन द्वन्द्वज
गुल्मोंकी यथा दोषानुसार कल्पना करनी
चाहिए ॥ ६९ ॥

हिंवादिचूर्ण ।

हिंशु त्रिकटुकं पाठां हपुषामभयां
शटीम् । अजमोदाजगन्धे च तित्ति-
डीं चाम्लवेतसम् ॥ ७० ॥ दाडिमं पौ-
ष्करं धान्यमजार्जी चित्रकं वचाम् ।
द्वौ क्षारौ पञ्चलवणं चव्यं चैकत्र

योजयेत् ॥ ७१ ॥ चूर्णमेतत्प्रयोक्तव्य-
मन्नपानेष्वनव्ययम् । प्राग्भुक्तमथ-
वा पेयं मद्येनोष्णोदकेन च ॥ ७२ ॥
पार्श्वहृद्वस्तिशूलेषु गुल्मे वातकफा-
त्मके । आनाहे मूत्रकृच्छ्रे च शूले
च गुदयोनिजे ॥ ७३ ॥ ग्रहण्यशौ-
विकारेषु प्लीहपांड्वामयेऽरुचौ । उरो-
विबन्धहिक्कायां कासे श्वासे गलग्र-
हे ॥ ७४ ॥ भावितं मातुलुङ्गस्य चूर्ण-
मेतद्रसेन वा । बहुशो गुटिकाः
कार्याः कार्षिकाः स्युस्ततोऽधिक-
म् ॥ ७५ ॥

हींग, सोठ, मिरच, पीपल, पाढ, हाऊवेर, हरड,
कचूर, अजमोद, वनतुलसी, (तित्तिड़ी,) अमल-
वेत, अनारदाना, पोहकरमूल, धनियॉ, जीरा, चीता,
वच, जवाखार, सजी, पांचो नमक, और चव्य
इन सबको एकत्र कूट पीसकर चूर्ण बनावे । इस
चूर्णको अन्नपानके साथ नित्य खाय । अथवा प्रातः-
काल मदिराके साथ या गरम जलके साथ सेवन करे।
यह हिंग्वादि-चूर्ण पार्श्वशूल, हृदयशूल, वस्तिशूल,
वातकफजनित गुल्म, आनाह, मूत्रकृच्छ्र, गुदजशूल,
योनिशूल, संग्रहणी, ववासीर प्लीहा, पाण्डुरोग,
अरुचि, उरोग्रह, विबन्ध, हिक्का, खाँसी, श्वास,
और गलग्रहरोगको दूर करता है । जो इसकी गोली
बनानी हो तो इस चूर्णको विजौरेनीवूके रसमे खरल
करके एक २ तोलेकी गोलियां बना लेवे । यह
गोलीभी पूर्वोक्त गुणोवाली जाननी चाहिए॥७०-७५

द्वितीय हिंग्वाद्यचूर्ण ।

हिंगुग्रन्थिकधान्यजीरकवचाचव्या-
ग्निपाठाशटीवृक्षाम्लं लवणत्रयं
त्रिकटुकं क्षारद्वयं दाडिमम् ॥ प-
थ्या पौष्करवेतसाम्लहपुषाजाज्य-
स्तदेभिः कृतं चूर्णं भावितमेतदा-
द्रकरसैः स्याद्बीजपूरद्रवैः ॥ ७६ ॥
गुल्माध्मानगुदाङ्कुरग्रहणिकोदावर्त्तसं-
ज्ञान्गदान् प्रत्याध्मानगदोदरा-
श्मरियुतोस्तूनद्वियारोचकान् । ऊ-

रुस्तम्भमतिभ्रमश्च मनसो बाधि-
र्यमष्ठीलिकां प्रत्यष्ठीलिकया सहा-
पहरते प्राक् पीतमुष्णाम्बुना ॥ ७७ ॥
हृत्कुक्षिवंक्षणकटीजठरान्तरेषु वस्ति-
स्तनांसफलकेषु च पार्श्वयोश्च । शू-
लानि नाशयति वातवलासजानि
हिंग्वाद्यमाद्यभिदमाश्विनसंहितोक्त-
म् ॥ ७८ ॥

हींग, पीपलामूल, धनियॉ, जीरा, वच, चव्य,
चीता, पाढ, कचूर, समाक, कालानमक, सैधानमक,
विडनमक, सोठ मिरच, पीपल, जवाखार, सजीखार,
अनारदाना, हरड, पोहकरमूल, अमलवेत, हाऊवेर
और कालाजीरा इन सब औषधियोको कूट पीसकर
चूर्ण बना लेवे । इस चूर्णको अदरखके रसमे और
विजौरे नीवूके रसमे खरल कर लेवे । यह हिंग्वादि
चूर्ण-गुल्म, आध्मान, ववासीर, संग्रहणी, उदावर्त्त-
रोग, प्रत्याध्मान, उदररोग, पथरी, तूनी, प्रतितूनी,
अरुचि, ऊरुस्तम्भ, मनसे अत्यन्त भ्रम, बाधिरता, अष्ठी-
लिका और प्रत्यष्ठीला इन सब रोगोंको दूर करदेता
है। इसको प्रातःकाल गरम जलके साथ सेवन करना
चाहिए । यह चूर्ण-हृदयशूल, वंक्षणशूल, कटिशूल,
उदरशूल वस्तिशूल, स्तनशूल, स्कन्धशूल और पार्श्व-
शूल इन सबको नष्ट करता है तथा विशेष कर वात-
कफजनित शूलको नष्ट करता है । यह हिंग्वादिचूर्ण
अश्विनीकुमारसंहितामे कहा है ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥

पथ्य ।

गुल्मवान्मदिरामण्डैस्तैलमैरण्डजंपि-
बेत् । बलासे प्रबले वाते पित्ते तु
क्षीरसंयुतम् ॥ ७९ ॥

मदिराका मंड और अंडीका तेल यह प्रबल कफ-
वातवाले गुल्म रोगीको सेवन करने चाहिए और
पित्तके गुल्ममे इनमे दूध मिलाकर सेवन करना
चाहिए ॥ ७९ ॥

त्रिदोषगुल्मके लक्षण ।

महारुजं दाहपरीतमश्मवद् धनो-
न्नतं शीघ्रविदाहि दारुणम् । मनः-

शरीराग्निबलापहारिणं त्रिदोषजं
गुल्ममसाध्यमादिशेत् ॥ ८० ॥

अत्यंतपीडा करनेवाला, दाहयुक्त, पापाणके समान कठिन, ऊँचा और बहुत भयंकर दाह करनेवाला, तथा अन्त करण, शरीर, अग्नि और बलको हरने-वाला ऐसा त्रिदोषजगुल्म जानना चाहिए । यह असाध्य होता है ॥ ८० ॥

त्रिदोषगुल्मकी चिकित्सा ।

धीमानुपाचरेद्गुल्मं प्रत्याख्याय त्रि-
दोषजम् । सन्निपातोत्थिते गुल्मे त्रि-
दोषघ्नो विधिर्हितः ॥ ८१ ॥

सन्निपातगुल्मको असाध्य जानकर त्रिदोषनाशक चिकित्सा करनी चाहिए । इसपर त्रिदोषनाशक औषधि प्रयोग करे ॥ ८१ ॥

धात्रीफलकघृत ।

धात्रीफलानां स्वरसे षडङ्गं विपचे-
द्घृतम् । शर्करासैन्धवोपेतं तद्धितं
सर्वगुल्मिनाम् ॥ ८२ ॥

आमलोंके स्वरसमे षडङ्ग घृतको पकावे । इस घृतमे मिश्री और संधानमक डालकर सेवन करे तो सर्व प्रकारके गुल्म नष्ट होते हैं ॥ ८२ ॥

लङ्घनं दीपनं स्निग्धमुष्णं वातानुलो-
मनम् । बृंहणञ्च भवेदन्नं तद्धितं सर्व-
गुल्मिनाम् ॥ ८३ ॥

लंघन, अग्निप्रदीपक, चिकने, उष्ण, वातानुलोमक और सर्वप्रकारके पुष्टिकारक अन्नपान गुल्मरोगीको हितकारी है ॥ ८३ ॥

गुल्मिनामनिलशान्तिरूपायैः सर्व-
शो विधिवदाचरितव्या । मारुते
तु विजिते समुदीर्णं दोषमल्पमपि
कर्म निहन्यात् ॥ ८४ ॥

सर्वप्रकारके गुल्मरोगमे प्रथम अनेक प्रयत्नोसे वातको शमन करना चाहिए । क्योंकि वातके शमन होनेपर पश्चात् अन्यदोष थोड़ेही यत्नोसे आप जान्त होजाते हैं ॥ ८४ ॥

सुखोष्णजाङ्गलरसाः सुस्निग्धाव्यक्तसै-
न्धवाः । कटुत्रिकसमायुक्ता हिताः
पानेषु गुल्मिनाम् ॥ ८५ ॥

जांगलदेशके जीवोंके मांसरसको वीमे भूनकर कुछएक संधानमक और त्रिकुटेका चूर्ण डालकर सुहा-ता सुहाता पान करे । यह गुल्म रोगियोंको हितकारी है ॥ ८५ ॥

कुम्भीपिण्डेष्टकास्वेदान्कारयेत्कुश-
लो भिषक् । उपनाहाश्च कर्त्तव्याः
सुखोष्णाः शाल्वणादयः ॥ ८६ ॥

बडेमे वातनाशक काथोंको अथवा कांजी आदिको भरकर स्वेद देवे, इसको कुम्भीस्वेद कहते हैं । सिद्ध मांसादिके पिण्डसे जो स्वेद दिया जाता है उसको पिण्डस्वेद कहते हैं । और ईटको गरम करके कांजीमे भिजोकर स्वेद देनेको 'इष्टकास्वेद' कहते हैं । इन तीनों प्रकारके स्वेद, सुखोष्ण लेप, उपनाहस्वेद और शाल्वणस्वेदके द्वारा गुल्मरोगको शमन करना चाहिए ॥ ८६ ॥

स्थानावसेको रक्तस्य बाहुमध्ये शि-
राव्यधः । स्वेदानुलोमनश्चैव प्रश-
स्तं सर्वगुल्मिनाम् ॥ ८७ ॥

गुल्मके स्थानमें तथा जिस पार्श्वमें गुल्म उत्पन्न हो उस बाहुकी संधिकी नीचेकी शिरामेसे रक्तमो-क्षण करावे तथा स्वेद और वातानुलोमक क्रिया करे इससे गुल्मरोग दूर होता है ॥ ८७ ॥

स्रोतसां मर्दवं कृत्वा जित्वा मारु-
तमुल्बणम् । भित्त्वा विबन्धं गुल्मस्य
स्वेदो गुल्ममपोहति ॥ ८८ ॥

गुल्मरोगमें स्वेदका देना स्रोतोंको शुद्ध करता है । बलवान् वायुको शमन करता है और मलमूत्रादिके रोधको दूर करके गुल्मके विबन्धको नष्ट करता है ॥ ८८ ॥

वल्लूरं मूलकं मत्स्याच्छुष्कशाकांश्च
वैदलम् । न खादेदालुकं गुल्मी मधु-
राणि फलानि च ॥ ८९ ॥

सूखा सांस, मूली, मछली, सूखाशाक, द्विदलअन्न,
(दो दालवाले धान्य) आलू (कांदू, रतालू इत्यादि)
और मधुरफल इन सबको गुल्मरोगी त्यागदेवे ॥८९॥

ऊर्ध्ववातश्च मनुजं गुल्मिनश्च निरू-
हयेत् ॥ ८० ॥

गुल्मरोगमें जो ऊर्ध्ववात हो तो उसको निरूहण
घस्ति देनी चाहिए ॥ ९० ॥

वचाद्यचूर्ण ।

वचाविडाऽभयाशुण्ठीहिङ्गुकृष्णाग्नि-
दीप्यकः । द्वित्रिषट्चतुरेकाष्टसप्तप-
श्चांशिकाः क्रमात् ॥ ९१ ॥ चूर्ण
मद्यादिभिः पीतं गुल्मानाहोदराप-
हम् । शूलार्शःश्वासकासघ्नं ग्रहणी-
दीपनं परम् ॥ ९२ ॥

वच २ भाग, विडनमक ३ भाग, हरड ६ भाग,
सोठ ४ भाग, हींग १ भाग, पीपल ८ भाग, चीता
७ भाग और अजमोद ५ भाग लेवे, सबको एकत्र
कूट पीसकर चूर्ण बना लेवे । इस चूर्णको मदिरा
आदिके साथ पान करे । यह—गुल्म, आनाह, उदररोग,
शूल, बवासीर, श्वास, खाँसी और संग्रहणीको दूर
करता है ॥ ९१ ॥ ९२ ॥

पाठानिकुम्भरजनीत्रिकटुत्रिफलाग्नि-
कम् । लवणं वृक्षमम्लश्च चूर्णं गोभू-
त्रसाधितम् ॥ ९३ ॥ घनीभूते तु व-
टिकां कृत्वा खादेत्तु गुल्मवान् ।
गुल्मप्लीहाग्निसादांश्च नाशयेयुरशे-
षतः ॥ ९४ ॥

पाठ, दंती, हलदी, सोठ, मिरच, पीपल, हरड,
बहेडा, आमला, चीता, सैधानमक और समाक इन
सबको समान भाग लेकर वारीक पीसकर चूर्ण
बनालेवे । फिर इस चूर्णको गोमूत्रमें पकावे । जब
गाढा होजाय तब गोलियां बना लेवे । यह गोलियां
गुल्म, प्लीहा और मन्दाग्निको नष्ट करती है ॥ ९३ ॥ ९४ ॥

हिङ्गुपुष्करमूलानि तुम्बुरुणि हरीत-
कीम् । श्यामां विडं सैन्धवश्च यव-

क्षारं महौषधम् ॥ ९५ ॥ यवकाथो-
दकैर्नव घृतभृष्टं तु पाययेत् । तेनास्य
भिद्यते गुल्मः समूलः सपरिग्रहः ९६ ॥

हींग, पोहकरमूल, तुम्बुरु, हरड, निसोत, विड-
नमक, सैधानमक, जवाखार और सोठ—इनको एकत्र
पीसकर चूर्ण बना लेवे । इस चूर्णको घीमें भूनकर
जौके काथके साथ पान करे । इससे बड़ा हुआ गुल्म
मूल सहित जडसे नष्ट होजाता है ॥ ९५ ॥ ९६ ॥

वचाहरीतकीहिङ्गुसैन्धवं साम्लवेत-
सम् । यवक्षारं यवानीश्च पिबेद्गुण्णो-
वारिणा ॥ ९७ ॥ एतद्धि गुल्मानि-
चयं समूलं सपरिग्रहम् । भिनत्ति
सप्तत्रिणैर्वह्नेर्वृद्धिं करोति च ॥ ९८ ॥

वच, हरड, हींग, सैधानमक, अमलवेत, जवा-
खार और अजवायन इन सबको समान भाग लेकर
वारीक पीसकर चूर्ण बना लेवे । इस चूर्णको गरम
जलके साथ सेवन करनेसे सातदिनमें बड़ा हुआ मूल
सहित जडसे गुल्म नष्ट होता है तथा अग्नि दीपन
होती है ॥ ९७ ॥ ९८ ॥

वातवर्चोनिरोधे वा सामुद्रार्द्रार्कस-
र्षपैः । कृत्वा पायोर्विधातव्या वर्त्तयो
मरिचोत्तरैः ॥ ९९ ॥

गुल्मरोगमें जो मल और अपानवायुका अवरोध
हो तो समुद्रनोन, भदरख, आक, सरसो और काली-
मिरच इनको एकत्र पीसकर कपडेपर बत्ती बनाकर
गुदामें रखे तो मल और वायु निर्गत होती है ॥ ९९ ॥

खादेद्वाप्यङ्कुरान्भृष्टा पूतीकनृपवृ-
क्षयोः । पिबेत्त्रिवृन्नागरं वा सगुडां वा
हरीतकीम् ॥ १०० ॥

अथवा दुर्गधकरंज और अमलतासके अङ्कुरोको भून
कर खाय । अथवा निसोत और सोठको एकत्र पीस-
कर जलके साथ पान करे अथवा गुडके साथ हरड
खाय ॥ १०० ॥

गुग्गुलं त्रिवृतां दन्तीं द्रवन्तीं सैन्धवं
वचाम् । मूत्रमद्यपयोद्राक्षारसैर्वीक्ष्य
यथाबलम् ॥ १०१ ॥

गूगल, निसोत, दंती, मूसाकानी, सैधानमक और बच इनको एकत्र पीसकर चूर्ण बनाकर मूत्रके साथ, मदिराके साथ, दूधके साथ अथवा दाखके रसके साथ बलानुसार सेवन करे ॥ १०१ ॥

**क्षारद्वयानलव्योषनीलीलवणपञ्चक-
म । चूर्णितं सर्पिषा पेयं सर्वगुल्मो-
दरापहम् ॥ १०२ ॥**

जवाखार, सज्जी, चीता, सोठ, मिरच, पीपल, नीलीके बीज और पांचोनमक-इन सबको समान-भाग लेकर बारीक चूर्ण बनाकर घीके साथ सेवन करनेसे सर्व प्रकारके गुल्म और उदररोग दूर होते हैं ॥ १०२ ॥

भाङ्गीषट्पलघृत ।

**षड्भिः पलैर्मगधजाफलमूलचव्य-
विश्वौषधज्वलनयावककल्कपक्वम् ।
प्रस्थं घृतस्य दशमूलरूबूकभाङ्गीका-
थेन वा पयसि दग्नि च षट्पलाख्यम्
॥ १०३ ॥ गुल्मोदराहृचिभगन्दरव-
द्विसादकासज्वरक्षयशिरोग्रहणीवि-
कारान् । सद्यः शमं नयति ये च
कफानिलोत्थांस्तानाशु नाशयति
दुर्जयमग्निमान्द्यम् ॥ १०४ ॥**

पीपल, पीपलामूल, चव्य, सोठ, चीता और जवाखार-ये प्रत्येक औषधि चार चार तोले लेकर कल्क बनावे। इन औषधियोंके कल्कके द्वारा एक प्रस्थ घृतको दशमूलके काथमे, अंडके काथमे और भारंगीके काथमे तथा दूध और दहीमें पकावे। जब पकते पकते घृतमात्र शेष रह जाय तब उतार लेवे। यह षट्पलघृत-गुल्म, उदररोग, अस्तिच, भगन्दर, अग्निमान्द्य, खाँसी, ज्वर, क्षय, शिरोरोग, संग्रहणी-रोग और कफवातजनित समस्त रोगोंको तथा घोर मन्दाग्निको तत्काल दूर कर देता है ॥ १०३ ॥ १०४ ॥

दन्तीघृत ।

**दन्त्याश्रतुष्पलरसे पिष्टैर्दन्तीशिला-
टुभिः । पचेत्प्रस्थं घृताद्गुल्मप्लीह-
पाङ्गान्तिशूलनुत् ॥ १०५ ॥**

दन्तीके चार पल रसमें दन्तीको पत्थर पर पीस लेवे। फिर इस कल्क और काथके द्वारा एक प्रस्थ घृतको पकावे। यह घृत-प्लीहा, पाण्डुरोग और शूलको नष्ट करता है ॥ १०५ ॥

विन्दुघृत ।

**त्रिवृदर्कस्तुहीक्षीरकाम्पिल्लैश्च पलां-
शकैः । सैन्धवाद्द्विपलोपेतैः हविः
कुडवमम्भसि ॥ १०६ ॥ पक्वमस्मा-
त्पिवेत्कर्षमुष्णवार्यनुपानकम् । सर्व-
गुल्मोदरध्वंसि त्रंसनं विन्दुसंज्ञ-
कम् ॥ १०७ ॥**

निसोत, आकका दूध, थूहरका दूध, कवीला ये प्रत्येक औषधि चार २ तोले और सैधानमक आठ तोले लेवे इनके कल्कके द्वारा आधसेर घृतको जलमे पकावे। जब पकते पकते केवल घृतमात्र शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे। इस घृतमेसे एक तोला परिमाण गरमजलके साथ पान करे। यह घृत-सर्व-प्रकारके गुल्मरोग और उदररोगोंको दूर करता है, इससे अच्छे प्रकारसे निरेचन होजाता है ॥ १०६ ॥ ॥ १०७ ॥

दधिकघृत ।

**विडदाडिमसिन्धूत्थहुतभुग्व्योषजी-
रकैः।हिङ्गुसौवर्चलक्षारचुक्रवृक्षाम्ल-
वेतसैः ॥ १०८ ॥ बीजपूररसोपेतैः
सर्पिर्दधिचतुर्गुणम् । साधितं दधि-
कं नाम्ना गुल्महृत्पार्थशूलनुत् ॥ १०९ ॥**

विडनमक, अनारदाना, सैधानमक, चीता, त्रिकु-टा, जीरा, हींग, कालानमक, जवाखार, चूका, समाक और अमलेवत-इन औषधियोंके कल्कके द्वारा विजारैर्नीवूके रसमें एक प्रस्थ घृतको चौगुने दहीमें पकावे। यह दधिकघृत-गुल्म, हृदयरोग और पार्थ-शूलको नष्ट करता है ॥ १०८ ॥ १०९ ॥

नीलिनीघृत ।

**नीलिनीं त्रिफलां रास्नां बलां कटु-
करोहिणीम् । पचेद्विडङ्गं व्याघ्रीश्च
पलिकानि जलाठके ॥ ११० ॥ तेन**

पादावशेषेण घृतप्रस्थं विपाचयेत् ।
दध्नः प्रस्थेन संयोज्य सुधाक्षीरपलेन
च ॥ १११ ॥ ततो घृतपलं दद्याद्य-
वागूमंडमिश्रितम् । जीर्णे सम्यग्वि-
रिक्तञ्च भोजयेद्रसभोजनम् ॥ ११२ ॥
गुल्मकुष्ठोदरव्यंगशोफपाण्ड्वामयज्व-
रान् । श्वित्रं प्लीहानमानाहं घृतमेत-
द्वचपोहति ॥ ११३ ॥

कालादाना, त्रिफला, रायसन, खिरँटी, कुटकी,
वायविडग और कटेरी-ये प्रत्येक औषधि चार चार
तोले लेकर एक आढक जलमे पकावे जब पकते पकते
जल चौथाई भाग शेष रहजाय तब उतार कर छान
लेवे । फिर इस काथमें घी एक प्रस्थ, दही एक प्रस्थ
और थूहरका दूध ४ तोले डाले । विधि पूर्वक घृतको
सिद्ध करे । इसमेसे चार तोले प्रमाण यवागूके मांड-
के साथ खाय । जब अच्छे प्रकारसे विरेचन होजाय
तथा यह औषधि जीर्ण होजाय तब इसपर मांसरस-
का भोजन करे । यह घृत-गुल्म, कोढ, उदररोग,
व्यंग, सूजन, पाण्डुरोग, ज्वर, श्वित्र, प्लीहा और
आनाह रोगोको दूर करता है ॥ ११०-११३ ॥

वचाद्यतैल ।

वचापुष्करकुष्ठैला मदनामरसिन्धु-
जैः । काकोलीद्वययष्ट्याहमेदायु-
ग्मकुटन्नटैः ॥ ११४ ॥ पाठाजीरक-
जीवन्तीभाङ्गीचन्दनकटफलैः । सर्-
लागुरुविल्वाम्रवाजिगन्धाग्निवृद्धि-
भिः ॥ ११५ ॥ विडङ्गारग्वधश्या-
मात्रिवृन्मागधिकादिभिः । पिष्टै-
स्तैलं पचेत्क्षीरे पञ्चमूलीरसान्विते ॥
॥ ११६ ॥ गुल्मानाहाग्निमान्द्याशौ-
ग्रहणीमूत्रसङ्गिनाम् । अनुवासनावि-
धौ युक्तं शस्यतेऽनिलरोगिषु ॥ ११७ ॥

वच, पोहकरमूल, कूठ, इलायची, मैनफल,
दवदारु, सैधानमक, काकोली, क्षीरकाकोली, मुलैठी,
मेदा, महामेदा, श्यानाक, पाठ, जीरा, जीवन्ती,
भारगी, चन्दन, कायफल, धूपसरल, अगर, बेल-

गिरी, आमकी छाल, अमगन्ध, चीता, वृद्धि,
वायविडंग, अमलतास, काला निसोत, निसोत और
पीपल-इन औषधियोंके कलकंक द्वारा दूध और पंच-
मूलके काथमें तैलको पकावे । जब पकते पकते तैल-
मात्र अवशेष रहजाय तब उतार कर छान लेवे ।
गुल्म, आनाह, मन्दाग्नि, ववासीर, संग्रहणी, मूत्ररोग
और वातरोगमे इस तैलको अनुवासनवन्तिके द्वारा
प्रयोग करना चाहिए ॥ ११४ ॥ ११५ ॥ ११६ ॥ ११७ ॥

कांकायनगुटिका ।

शटी पुष्करमूलश्च दन्ती चित्रकमा-
ठकी । शृङ्गवेरवचाश्चैव पलिकानि
समाहरेत् ॥ ११८ ॥ त्रिवृत्तायाः प-
लं कुर्यात्त्रीन्कर्षाश्चैव हिंशुनः । पलं
हि लवणानाश्च यवक्षारपलं तथा ॥
॥ ११९ ॥ द्वे पले च तथा शुण्ठ्या
द्वे पले चाम्लवेतसात् ॥ १२० ॥
यवान्यजाजीमरिचं धान्यकं गिरि-
कर्णिका । उपकुशिकाजमोदा च कु-
र्याद्वैद्वपलोन्मितान् ॥ १२१ ॥ ह-
रीतकी पले द्वे च विडङ्गं दाडिमं त-
था । मातुलुङ्गरसेनैव गुटिकाः का-
रयेद्विषक् ॥ १२२ ॥ एकां तासाश्च
द्वे तिस्रो गुटिकास्ताः सुखांबुना ।
अम्लैर्भैक्ष्य पातव्या घृतेन पयसा-
ऽथवा ॥ १२३ ॥ एताः काङ्कायने-
नोक्ताः गुटिका गुल्मभेदिकाः । अ-
शौहृद्रग्रहणीरोगकृमीणाश्च विना-
शिकाः ॥ १२४ ॥ गोमूत्रेण निह-
न्युश्च श्लेष्मगुल्मं चिरोत्थितम् ।
क्षीरेण पित्तगुल्मन्तु मद्येन श्लेष्मवा-
तिकम् ॥ १२५ ॥ त्रिफलारसमूत्रा-
भ्यां निचयं सान्निपातिकम् । रक्त-
गुल्मश्च नारीणां पयसा कारभेण
तु ॥ १२६ ॥

कचूर, पोहकरमूल, दंती, चीता, सोरठकी मिट्टी, अदरख और वच-ये प्रत्येक औषधि चार चार तोले, निसोत चार तोले, हींग ३ तोले, पांचों नमक चार २ तोले, जवाखार चार तोले, सोंठ आठ तोले, असल-वेत आठ तोले, अजवायन, जीरा, काली मिरच, धनियाँ, विष्णुक्रांता, कलौंजी और अजमोद ये प्रत्येक औषधि दो दो तोले, हरड ८ तोले, वायविडंग आठ तोले और अनारदाना आठ तोले लेवे । सबको एकत्र कूट पीस कर चूर्ण बना लेवे । इस चूर्णको विजौरेनीवूके रसमें खरल करके गोलियाँ बना लेवे । इससे प्रतिदिन एक गोली या दो गोली अथवा तीन गोली गरम जल-के साथ, कांजीके साथ, मदिराके साथ, घीके साथ अथवा दूधके साथ खाय । यह गोली कांकायनक्र-पिने कही है । यह-गुल्मको भेदन करनेवाली, तथा ववासीर, हृदयरोग, संग्रहणीरोग और कृमिरोगको नष्ट करती है, इनको गोमूत्रके साथ सेवन करनेसे बहुत दिनोंको पुराना कफजगुल्म दूर होता है । इनको दूधके साथ सेवन करनेसे पित्तजगुल्म दूर होता है । मदिराके साथ पान करनेसे कफवातिकगुल्म दूर होता है । त्रिफलेके रसके साथ और गोमूत्रके साथ सेवन करनेसे सान्निपातिकगुल्म दूर होता है और ऊंटनीके दूधके साथ सेवन करनेसे खियोंका रक्तगुल्म दूर होता है ॥ ११८-१२६ ॥

हिंवादिवटिका ।

हिंशुत्रिकटुकवचाजमोदा धान्या-जगन्धादाडिमतिन्तिडीकाः पाठा-चित्रकचव्यसैन्धवविडसौवर्चलयव-क्षारस्वार्जिकाः पिप्पलीमूलाम्लवेत-सशदीपुष्करहपुषाजाज्यः पथ्याः । संचूर्ण्य मातुलुङ्गाम्लेन बहुशः परि-भाव्य गुटिकाः कारयेत् । ततः प्रातरे-कैकां वातरोगी च भक्षयेत् । एवं खलु योगो गुल्मश्वासकासारोचकहृद्दो-गान् हरति अयं जन्तून्प्रति प्रयोग-श्चात्यर्थमुपयुज्यत इति । इति हिंवा-दिवटिकाप्रकारः - संस्कृतेनोक्तः ।

हींग, त्रिकुटा, वच, अजमोद, धनियाँ, वनतुलसी, अनारदाना, विपांबिल, पाठ, चीता, चव्य, सैधान-मक, विरियासंचरनमक, कालानमक, जवाखार, सजी, पीपलामूल, असलवेत, कचूर, पोहकरमूल, हाऊवेर, जीरा और हरड इन सबको समान भाग लेकर कूट, पीसकर चूर्ण बनालेवे । इस चूर्णको वि-जौरेनीवूके रसमें खूब खरल करके गोलियाँ बनालेवे इनमेंसे प्रतिदिन प्रातःकाल वातरोगी एक २ गोली खाय । यह गोली-गुल्म, श्वास, खोंसी, अरुचि, हृद-यरोग इत्यादि अनेक रोगोंको दूर करती है ॥

आरोग्यवटिका ।

अपामार्गपलाशानां तथैवेक्षुरसस्य च स्नुह्यर्कयोर्मातुलुङ्गकुटजस्याग्निकस्य च ॥ १२७ ॥ तिलसर्षपमूलानि द-ग्ध्वा भस्मानि कारयेत् । गोजावि-ष्मूत्रसहितं सर्पित्तैलसमन्वितम् ॥ १२८ ॥ त्र्यूषणं पिप्पलीमूलं त्रि-त्रकं शुष्कमूलकम् । मूर्वामतिविषां पाठां कुष्ठं भल्लातकानि च ॥ १२९ ॥ चव्यं पूतिकरञ्जश्च बिल्वं कटुकरो-हिणीम् । द्वौ क्षारौ पञ्चलवणं सम-भागानि कारयेत् ॥ १३० ॥ सत्री-य चूर्णलवणैः शर्नमृद्वाग्निना पचेत् । तदग्निचूर्णं निर्धूमं कृत्वा चूर्णं सुशी-तलम् ॥ १३१ ॥ अङ्गुलीग्रहमालो-ड्य सुरामंडेन पाययेत् । मस्त्वारना-लमूत्रैस्तु युक्तः स्याद्वातगुल्मनुत् ॥ १३२ ॥ शूलवातोदरप्लीहपांड्वामय-किलासकम् । हन्यादारोग्यलवणं प्रशस्तं कफवातनुत् ॥ १३३ ॥

चिरचिटा, ढाक, ईखका रस, थूहरका दूध, आक-का दूध, विजौरेनीवूकी जड, कूडेकी जड, चीतेकी जड, तिलकी जड और सरसोकी जड-इन सबको जला कर भस्म कर लेवे । फिर इसमें गोमूत्र, बकरिका मूत्र, भेडका मूत्र, घी, तेल, त्रिकुटा, पीपलामूल, चीता, सूखीमूली, मूर्वा, अतीस, पाठ, कूठ, भिलावे, चव्य,

दुर्गंधकरंज, बेलगिरी, कुटफां, जवागार, सजी और पांचो नमक ये सब समान भाग लेकर सबको एकत्र पीस कर पुटपाककी विधिसे भस्म कर ले । जब पककर स्वयं शीतल हो जाय तब निकाल कर पीसकर चूर्ण कर लेवे । इस चूर्णको सुरामंडमें अंगुलीसे मिलाकर खाय और ऊपरसे दहीके तांडका या फांजीका अथवा गोमूत्रका अनुपान करे । यह चूर्ण वान-गुल्म, शूल, वात, उदररोग, प्लोहा, पाण्डुरोग, किलास, और कफवातको नष्ट करता है ॥ १२७-१२३ ॥

नादेयीक्षार ।

नादेयी कुटजार्काशियु बृहती स्तु-
ग्विल्वभल्लातकं, व्याघ्रीकिंशुकपा-
रिभद्रकजटाऽपामार्गनीपाऽग्रिकान् ॥
वासामुष्ककपाटलां सलवणां दग्ध्वा
जले पाचितं, हिंवादिप्रतिवापमेतदु-
दितं गुल्मोदराष्टील्लिषु ॥ १३४ ॥

जलवेत, कुडेकी छाल, आककी छाल, सहिजनेकी छाल, बडी कटेरीकी जड, थूहरकी जड, बेलगिरी, भिलावे, कटेरी, ढाकके फल, नौसकी छाल, चिरचिटा, कदम्ब, चीता, अडूसा, मोखापाटल और पाटला नमक-इन सबको अग्निसे जला कर जलमे पकावे । जब क्षार सिद्ध हो जाय पश्चात् इसमे हींगआदि औषधियोंका छौंक दे करके सेवन करे । यह-गुल्म, उदररोग और अष्टीलिकारोगको दूर करता है ॥ १३४ ॥

हिंवादिचूर्ण ।

हिंगुग्रगन्धाविडशुण्ठयजाजीहरीत-
कीपुष्करमूलकुष्ठम् । भागोत्तरं चू-
र्णितमेतदिष्टं गुल्मोदराजीर्णविपूचि-
कासु ॥ १३५ ॥

हींग एक भाग, वच २ भाग, विडनमक ३ भाग, सोठ ४ भाग, जीरा ५ भाग, हरड ६ भाग, पोहकरमूल ७ भाग और कूठ ८ भाग लेवे । सबको एकत्र पीसकर चूर्ण बनावे । यह चूर्ण-गुल्म, उदर-रोग, अजीर्ण और विपूचिकारोगको दूर करता है ॥ १३५ ॥

रक्तगुल्मकी सम्प्राप्ति निदान और लक्षण ।

नवप्रसूताहितभोजना या या चाम-
गर्भ विसर्जेदन्ता वा । वायुर्हि तस्याः
परिगृह्य रक्तं करोति गुल्मं सरुजं
सदाहम् ॥ १३६ ॥ पित्तम्य लिङ्गं न
समानलिङ्गं विशेषणश्चाप्यपरं नि-
बोध । यः स्पन्दते पिण्डित एव
नाङ्गश्चिरात्स शूलः समगर्भलिङ्गः ॥
स रौधिरः स्त्रीभव एव गुल्मो मासे
व्यतीते दशके चिकित्स्यः ॥ १३७ ॥

नवप्रसूताओंके अस्थय नेत्रन करनेपर अथवा अपक अवस्थामे गर्भके पतित हो जाने पर या ऋतु-कालमे अहितकारक भोजन करनेसे, वायु गर्भाश-यमें रुधिरको जमा कर पीड़ा और दाहयुक्त गुल्मको उत्पन्न करता है । इसमे बहुतसे पित्तगुल्मके लक्षण होते हैं इसमें जो जेपदार लक्षण होते हैं, उनको कहता हूँ । वह गुल्म गोलाकर पेटमें फडकता रहता है और उसके हाथ पांव आदि अंगोंका आहार नहीं फडकता दीखता है और गर्भके सब लक्षण मालूम होते हैं बहुत देरमें शूल होता है । ऐसी स्त्रियोंके इस रक्तगु-ल्मकी चिकित्सा दश महीनेके पश्चात् करनी चाहिये ॥ १३६ ॥ १३७ ॥

रक्तगुल्मकी चिकित्सा ।

रौधिरस्य तु गुल्मस्य गर्भकालक्र-
मेण च । सुस्निग्धस्निग्धकायायै यो-
ज्यं स्नेहविरचनम् ॥ १३८ ॥

रक्तगुल्मवाली स्त्रीके जब गर्भका समय बीतजावे तब उसको स्निग्ध और स्वेदित करके स्नेहयुक्त विरे-चन देवे ॥ १३८ ॥

शताह्वादिकल्क ।

शताह्वाचिरविल्वत्वग्दारुभाङ्गीक-
णाभवः । कल्कः पीतो जयेद्गुल्मं ति-
लकाथेन रक्तजम् ॥ १३९ ॥

शतावर, करंजकी छाल, देवदारु, भारंगी और पीपल इनके कल्कको तिलोके काथके साथ पान करनेसे रक्तगुल्म दूर होता है ॥ १३९ ॥

तिलकाथ ।

तिलकाथो गुडव्योषघृतभाङ्गीयुतो भवेत् । पानं रक्तभवे गुल्मे नष्टे पुष्पे च योषिताम् ॥ १४० ॥

तिलोके काथमे गुड, त्रिकुटेका चूर्ण, भारंगीका चूर्ण और घृत डालकर पान करनेसे स्त्रियोंका रक्तगुल्म नष्ट होता है और नष्ट हुआ रजोधर्म फिरसे उत्पन्न होता है ॥ १४० ॥

पीतः सुरारसो युक्त्या मदिरा वाऽऽशु गुल्मनुत् ॥ १४१ ॥

युक्तिपूर्वक सुराके रसको पान करनेसे अथवा मदिराको पीनेसे स्त्रियोंका रक्तगुल्म दूर होता है ॥ १४१ ॥

मुंढिरेचनिकाचूर्णं शर्करामाक्षिकान्वितम् । विदधीताम्रगुल्मिन्यां मलसंरेचनाय च ॥ १४२ ॥

गोरखमुण्डी, रेवनचीनी, लॉड और गहद इनको एकत्र पसिकर सेवन करनेसे रक्तगुल्म दूर होता है और अच्छे प्रकारसे दस्त होने लगता है ॥ १४२ ॥

पलाशक्षारघृत ।

विशेषमपरश्वास्याः शृणु रक्तप्रभेदनम् । पलाशक्षारतोयेन सर्पिः सिद्धं पिबेच्च सा ॥ १४३ ॥ यस्मिन्नवसरे क्षारतोयसाध्यघृतादिषु । फेनोद्गमस्य निष्पत्तिर्नष्टुद्गधसमाकृते । स एव तस्य पाकस्य कालो नेतरलक्षणः ॥ १४४ ॥

अब विशेष रुधिरके गुल्मको भेदन करनेवाले प्रयोग कहता हूँ। ढाकके खारके जलसे घृतको पकाकर सेवन करे तो रक्तगुल्म नष्ट होता है। जो क्षारदिके जलके द्वारा घृतको पकाना हो तो उसमें जब पकते पकते फटे हुए दूधके समान भाग आ जायँ

तब उसको अच्छे प्रकारसे सिद्ध हुआ जानना वही उसके पाकका समय है ॥ १४३ ॥ १४४ ॥

कह्लारघृत ।

कह्लारमुत्पलं पत्रं कुमुदं मधुयष्टिका । पक्काऽम्बुनाथ तत्काथं जीवनीयोपकल्पितम् ॥ १४५ ॥ घृतं पक्का नवं पीतं रक्तपित्तास्रगुल्मनुत् । दाह-तृष्णात्वरच्छर्दियोनिदोषहरं परम् ॥ १४६ ॥

गौका घी २ सेर, कल्कके लिये जीवनीयदशक आधसेर और काथके लिये सुफेद कुमुद, लालकुमुद, लालकमल, नीलकमल और मुलैठी दो सेर, जल वत्तीस सेर, शेष आठ सेर रक्खे। सबको मिलाकर यथाविधिसे घृतको सिद्ध करे। इस घृतको पान करनेसे रक्तपित्त, रक्तगुल्म, दाह, तृष्णा, ज्वर, वमन और योनिके विकार दूर होते हैं ॥ १४५ ॥ १४६ ॥

उष्णैर्वा भेदयेद्भिन्ने विधिरसृग्दरो हितः । अतिप्रवृत्तमस्त्रन्तु भिन्ने गुल्मे निवारयेत् ॥ १४७ ॥ रक्तपित्तहरैर्योगैर्वातघ्नैश्च मरुद्गदान् । शुर्वभिष्यन्दि कुय्याद्वै रक्षत्रत्रिबलं सदा ॥ १४८ ॥ गुल्मवत्स्वन्नपानानि यथावस्थं प्रयोजयेत् ॥ १४९ ॥

रक्तगुल्मको उष्ण औषधियोंके द्वारा भेदित करे। जब भेदित हो जाय तब प्रदरनाशक विधि करनी चाहिए। जो गुल्मके भेदित होनेपर अत्यन्त रुधिरस्राव होने लगे तो तत्काल उसको रक्तपित्तनाशक औषधियोंके द्वारा बंद करे और जो उसमें वातकी पीडा हो तो वातनाशक औषधियोंके द्वारा उस पीडाको शमन करे। इसपर सदैव भारी और अभिष्यन्दकारक अन्नपानोंसे अग्नि और बलकी रक्षा करनी चाहिए। इसमें यथादोषानुसार गुल्मके समान अन्नपान सेवन करने चाहिए ॥ १४७ ॥ १४८ ॥ १४९ ॥

असाध्यलक्षण ।

सञ्चितः क्रमशो गुल्मो महावास्तुपरिग्रहः । कृतशूलः शिरानद्धो यदा

कूर्मं इवोन्नतः ॥ १५० ॥ दौर्बल्या-
रुचिहृल्लासकासच्छर्द्यरुचिज्वरैः ।
नृष्णातन्द्राप्रतिश्यायैर्युज्यते न स
सिद्धयति ॥ १५१ ॥ गृहीत्वा सरुजं
श्वासं छर्द्यतीसारपीडितम् । हन्नाभि-
हस्तपादेषु शोथः कर्षति गुल्मिनम् ॥
॥ १५२ ॥ श्वासः शूलं पिपासान्न-
विद्वेषो ग्रन्थिमूढता । जायते दुर्बल-
त्वञ्च गुल्मिनो मरणाय वै ॥ १५३ ॥

जो गुल्म क्रम क्रमसे सचित होकर सर्व उदरमें व्याप्त हो, शूलको उत्पन्न करे तथा गिराओके जालसे घेष्टित हो, कछुएकी समान ऊँचा हो जाय, एवं दुर्बलता, अरुचि, उवकाई, खँसी, वमन, अरुचि, ज्वर, तृषा, तन्द्रा और प्रतिश्याय इनमें युक्त हो तो असाध्य जानना । अथवा पीडा, श्वास, वमन, अतीसार इनसे पीडित, हृदय, नाभि, वन्ति और पाँवों तक सूजन हो और शूल हो ऐसा गुल्मरोगी असाध्य है । एवं श्वास, शूल, पिपास, अन्नमें अरुचि और अकस्मात् गुल्मकी गांठ लुप्त हो जाना और दुर्बलता ये सब लक्षण गुल्मरोगीके मरनेके लिए उत्पन्न होते हैं ॥ १५० ॥ १५१ ॥ १५२ ॥ १५३ ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां
गुल्मनिदानचिकित्साधिकार
समाप्त ॥ ३२ ॥

अथ हृदयरोगाधिकार ।

हृदयरोगका निदान ।

अत्युष्णगुर्वम्लकषायतिक्तश्रमाभिघा-
ताध्यशनप्रसङ्गैः । सञ्चिन्तनेर्वेग-
विधारणैश्च हृदामयः पञ्चविधः प्र-
दिष्टः ॥ १ ॥

अत्यन्त उष्ण, भारी, खट्टे, कपिले, कडवे ऐसे पदा-
र्थोंको सेवन करनेसे, तथा श्रम, अभिघात, अध्यशन
(भोजनपर भोजन), मैथुन, मलमूत्रादिके वेगका
धारण, चिन्ता इत्यादि कारणोंसे हृदयरोग उत्पन्न
होता है । वह वातादि सम्बन्धसे पाँच प्रकारका
जानना ॥ १ ॥

जठरानलदौर्बल्यादविपक्वस्तु यो
रसः । स आमसंज्ञको देहे सर्वदोष-
प्रकोपजः ॥ २ ॥ अन्यदोषेभ्य एवा-
दौ विवृद्धेभ्योऽन्यमूर्च्छनात् । को-
द्वेभ्यो विपक्षेव वदन्त्यामस्य स-
म्भवम् ॥ ३ ॥

जठरार्गिके मन्द होनेसे जब भोजनका रस अप-
क रह जाता है, उसको आम कहते हैं—और वह श-
रीरमें स्थित हुआ अनेक प्रकारके दोषोंको कुपित
करता है । और वह सर्व दोषोंके प्रकोपसे उत्पन्न
होता है । वह पहिले अन्य दोषोंसे बटकर और अन्य
दोषोंसे मूर्च्छित होता है, जिम प्रकार कोदोंसे विष
होता है उसी प्रकार आमका होना सम्भव है ॥ २ ॥
॥ ३ ॥

दृपयित्वा रसं दोषा विगुणा हृदयं
गताः । हृदि वाधां प्रकुर्वन्ति हृदो-
गंतं प्रचक्षते ॥ ४ ॥

दोष कुपित होकर रस धातुको दूषित करके
हृदयमें पीडाको उत्पन्न करते हैं, उसको हृदयरोग
कहते हैं ॥ ४ ॥

वातजहृदयरोगके लक्षण ।

आयम्यते मारुतजे हृदयन्तुद्यते त-
था । निर्मथ्यते दीर्यते च स्फोट्यते
पात्यतेऽपि च ॥ ५ ॥

वातजहृदयरोगमें—हृदयमें खींचनेके समान, सुई
चुभोनेके समान, फोडनेके समान, तोडनेके समान,
मथनेके समान और कुल्हाडीसे चीरनेके समान
पीडा होती है ॥ ५ ॥

हृदयरोगकी चिकित्सा ।

वातोपसृष्टे हृदये वामयेत्स्निग्धमा-
तुरम् । द्विपञ्चमूलीकाथेन सुस्नेहल-
वणेन च ॥ ६ ॥

वातजनितहृदयरोगमें—रोगीको दशमूलके काथमें
तेल और सैधानमकका चूर्ण डालकर पान कराकर
वमन करावे ॥ ६ ॥

पिप्पल्यैलावचाहिंशुयवक्षारोऽथ सै-
न्धवम् । सौवर्चलमथो शुण्ठी ह्यज-
मोदा च चूर्णितम् ॥ ७ ॥ फलधा-
न्याम्लकौलित्थदधिमद्यवसादिभिः ।
पाययेच्छुद्धदेहश्च स्नेहेनान्यतमेन
च ॥ ८ ॥

पीपल, इलायची, वच, हींग, जवाखार, सैधा-
नमक कालानमक, सोठ और अजमोद—इन सबका
एकत्र चूर्ण कर त्रिफलाके काथके साथ, कांजीके साथ,
कुलधीके थूपके साथ, दही, मदिरा, वसा अथवा
अन्य किसी स्नेह पदार्थके साथ वमन विरेचनादिके
लिये शुद्ध शरीरवाले हृदयरोगीको पान
करावे ॥ ७ ॥ ८ ॥

पुष्करादिकल्क ।

सपुष्कराहं फलपूरमूलं महौषधं श-
ठ्यभया च कल्कः । क्षाराम्लसर्पि-
र्लवणैर्विमिश्रैः स्यद्वातहृद्रोगविकर्त्ति-
ताघ्नः ॥ ९ ॥

पोहकरमूल, विजौरे नींबूकी जड़, सोठ, कचूर और
हरड—इन सबको पीसकर कल्क बनाकर जवाखारके
साथ, कांजीके साथ, धीके साथ अथवा सैधानमकके
साथ मिला कर खाय तो वातजहृदयरोग दूर होता
है ॥ ९ ॥

पुष्करादिकाथ ।

काथः कृतः पौष्करमातुलुङ्गपलाश-
पूतीकशठीसुराह्वैः । सनागराजा-
जिवचायवानी सक्षार उष्णो लव-
णेन पेयः ॥ १० ॥

पोहकरमूल, विजौरा नींबू, ढाक, दुर्गधकरज,
कचूर और देवदारु—इनके काथमे सोठ, जीरा, वच,
अजवायन इनके काथमे जवाखार और सैधानमक
इनका चूर्ण डालकर गरम गरम पीवे तो वातजहृदय-
रोग दूर होता है ॥ १० ॥

हरीतक्यादि घृत ।

हरीतकीपुष्करनागराह्वयैर्यवैर्वयस्था-
लवणैश्च कल्कैः । सहिंशुभिः साधित-

मेव सर्पिर्हितश्च हृत्पार्श्वगदेऽनिलो-
त्थे ॥ ११ ॥

हरड, पोहकरमूल, सोठ, इंद्रजौ, गिलोय और
सैधानमक इनके कल्कके द्वारा हींग डालकर घृतको
सिद्ध करे । यह घृत—हृदयरोग, पार्श्वशूल और वातके
रोगोंको दूर करता है ॥ ११ ॥

पुनर्नवादि तैल ।

पुनर्नवां दारु सपञ्चमूलं रास्नां यवा-
न्कौलकपित्थविल्वम् । पक्त्वा जले
तेन पचेत्तु तैलमभ्यङ्गपानेऽनिलहृद्-
दघ्नम् ॥ १२ ॥

पुनर्नवा, देवदारु, पंचमूल, रायसन, जौ, बेर,
कैथ और वेलगिरी इनके काथमे तेलको पकावे ।
इस तेलकी मालिश करनेसे और इसको पान करनेसे
वातजहृदयरोग दूर होता है ॥ १२ ॥

पथ्य ।

बल्यमांसरसक्षीरघृतशालिश्च भोज-
येत् । वातघ्नसिद्धं तैलश्च वस्ति दद्या-
द्विचक्षणः ॥ १३ ॥

बलकारक पदार्थ, मांस, मांसरस, दूध, धी और
शालिचावल तथा वातनाशक औषधियोंके द्वारा सिद्ध
किये हुए तैल और वस्तिकर्म ये सब उपचार वातज
हृदयरोगमें करने चाहिये ॥ १३ ॥

पित्तजहृदयरोग लक्षण ।

तृष्णोपदाहशोषाः स्युः पित्तिके हृद-
यक्लमः । धूमायनश्च मूर्च्छा च स्वेदः
शोषो मुखस्य च ॥ १४ ॥

पित्तजहृदयरोगमे—तृषण, कुछ दाह, शोष, हृदयमे
ग्लानि, धुंआ निकलतासा मालूम हो, मूर्च्छा, स्वेद और
मुखशोष होता है ॥ १४ ॥

चिकित्सा ।

श्रीपर्णीमधुकक्षौद्रसितागुडजलैर्वमेत ।
पित्तोपसृष्टे हृदये सैवत मधुरैः
शृतम् । घृतं कषायांश्चोद्दिष्टान्पित्तज्व-
रविनाशनान् ॥ १५ ॥

पित्तजहृदयरोगमे-कुम्भेरके फल और मुलैठीके काथमे शहद, मिश्री और गुड डालकर वमन करावे। मधुरपदार्थोंके साथ सिद्ध किया हुआ घृत और काथ सेवन करे तथा पित्तज्वरोक्त चिकित्सा करे ॥ १५ ॥

शीताः प्रदेहाः परिशोधनञ्च तथा विरेको हृदि पित्तदुष्टे । द्राक्षासिता-क्षौद्रपरुषकैः स्याच्छुद्धे च पित्तापह-मन्नपानम् ॥ १६ ॥

पित्तजहृदयरोगमें-चंदनादिके शीतल प्रलेप, शीतल जलका सेवन और विरेचन ये सब उपचार करे। तथा वमनविरेचनादिसे शरीरको शुद्ध करके दाख, मिश्री, मधु और फालसे एवं पित्तनाशक अन्नपान प्रयोग करे ॥ १६ ॥

पिष्ट्वा पिबेद्वापि सिताजलेन यष्ट्या-ह्वयं निक्तकरोहिणीं च ॥ १७ ॥

मुलैठी और कुटकीको जलमें पीसकर मिश्रीके गर्वतसे पान करनेसे पित्तजनितहृदयरोग दूर होता है ॥ १७ ॥

अर्जुनक्षीरपाक ।

अर्जुनस्य त्वचासिद्धं क्षीरं योज्यं हृदामये । सितया पञ्चमूल्या वा बलया मधुकेन वा ॥ १८ ॥

अर्जुनवृक्षकी छालको दूधमें पकाकर मिश्री डालकर पान करे, अथवा पंचमूलको या खिरैटीको अथवा मुलैठीको दूधमें पकाकर मिश्री मिलाकर सेवन करे तो पित्तजहृदयरोग दूर होता है ॥ १८ ॥

ककुभादिचूर्ण ।

घृतेन दुग्धेन गुडाम्भसा वा पियन्ति चूर्णं ककुभस्त्वचो ये । हृद्रोगजीर्ण-ज्वररक्तपित्तं हत्वा भवेयुश्चिरजीवि-नस्ते ॥ १९ ॥

घृत, दूध अथवा गुड़के गर्वतके साथ अर्जुनवृक्षकी छालका चूर्ण सेवन करनेसे हृदयरोग, जीर्णज्वर और रक्तपित्तरोग दूर होता है ॥ १९ ॥

कशेरुकाद्यघृत ।

कशेरुकाशैवलशङ्खवेरप्रपोण्डरीकं मधुकं विसञ्च । ग्रन्थिञ्च सर्पिः पयसा पचेत्तैः क्षौद्रान्वितं पित्तगदाम-यघ्नम् ॥ २० ॥

कसेरू, जलमे होनेवाला जाल, अदरख, पुंडेरिया मुलैठी, कमलकद और गठिवन-इनके काथके द्वारा दूधमें घृतको पकावे फिर इस घृतमें शहद डालकर सेवन करे तो पित्तजहृदयरोग दूर होता है ॥ २० ॥

श्रेयस्याद्यघृत ।

श्रेयसीशर्कराद्राक्षाजीवकर्षभकोत्प-लैः । बलाखर्जूरकाकोलीमेदायुग्मैश्च साधितम् । सक्षीरं माहिषं सर्पिः पित्तहृद्रोगनाशनम् ॥ २१ ॥

हरड, खाड, दाख, जीवक, ऋषभक, कमल, खिरैटी, खजूर, काकोली, मेदा और महामेदा-इनके काथके द्वारा भैसके दूधमें भैसके घृतको पकावे। यह घृत पित्तजहृदयरोगको दूर करता है ॥ २१ ॥

स्थिराद्यघृत ।

स्थिरादिकल्कवत्सर्पिः क्षीरेणेशुरस-न वा । द्राक्षारसेन पक्वं वा पित्तरोग-विनाशनम् ॥ २२ ॥

गालिपर्णी आदि औषधियोंका कल्क, घी, दूध, ईखका रस और दाखोंका रस-इन सबको एकत्र मिलाकर पकावे। इस घृतको सेवन करनेसे पित्तजहृदयरोग दूर होता है ॥ २२ ॥

पथ्य ।

सक्षौद्रं वितरेद्वस्तिस्तैलं मधुकसंयु-तम् ॥ २३ ॥

शहदके साथ पिचकारी लगावे और शहदके साथ तेलको सेवन करे, यह पित्तजहृदयरोगमें हितकारी है ॥ २३ ॥

कफजहृदयरोगके लक्षण ।

गौरवं कफसंस्त्रावोऽरुचिस्तम्भोऽग्नि-मार्दवम् । माधुर्यमपि चास्यस्य बलासो वर्तते हृदि ॥ २४ ॥

कफजहृदयरोगमे भारीपन, कफका निकलना, अरुचि, हृदयका जकडना, मन्दाग्नि और मुखमे मधुरता होती है ॥ और हृदयमें कफका सञ्चार होता है ॥ २४ ॥

चिकित्सा ।

हृद्रोगे कफजे स्विन्नं वमितं लङ्घिनं नरम् । कफत्रैर्भेषैर्युञ्ज्याज्ज्ञात्वा दोषबलावलम् ॥ २५ ॥

कफजहृदयरोगपर प्रथम पसीने निकलवावे, वमन करावे, लंघन करावे और दोषोका बलावल विचारकर कफनाशक औषधियोंके द्वारा चिकित्सा करे ॥ २५ ॥

वचानिम्बकषायाभ्यां वाम्यं हृदि कफोत्थिते । वातहृद्रोगहृच्चूर्णं पिप्पल्यादि च योजयेत् ॥ २६ ॥

कफजनितहृदयरोगमें—वच और नीमके काथके द्वारा वमन करावे। वातजहृदयरोग नाशक जो पिप्पल्यादि चूर्ण है इसको भी इसमें प्रयोग करे ॥ २६ ॥

कुम्भीशठीबलारास्त्राशुण्ठीपथ्यास-
पौष्कराः । चूर्णिता वा सृता मूत्रे
पातव्याः कफहृद्भे ॥ २७ ॥

— पाडल, कचूर, खिरौंटी, रायसन, सोठ, इरड और पोहकरमूल इन सबका चूर्ण करके अथवा काथ बनाकर गोमूत्रके साथ पान करे तो कफजहृदयरोग दूर होता है ॥ २७ ॥

सूक्ष्मैला मागधीमूलं प्रलीढं सपिषा सह । नाशयत्याशु हृद्रोगं गुल्मान-
पि विशेषतः ॥ २८ ॥

छोटी इलायची और पीपलामूलको पीसकर घृतमे मिलाकर सेवन करनेसे हृदयरोग और विशेषकर गुल्मरोग दूर होता है ॥ २८ ॥

तित्तकचूर्णं ।

मुसैलाचन्दनोशीरजीवनीव्योषचि-
त्रकाः । बिल्वत्वक्कटुकादारुदावी-
त्वक्पर्पटत्वचः ॥ २९ ॥ पटोलं निम्ब-
पडमन्था क्रोद्धिभूनिम्बंशिग्रुकाः ।

चूर्णं त्रायन्तीसौराष्ट्रीकेशरातिविषाः
समाः । तित्ताख्यं हन्ति हृद्रोगं शूल-
हृत् सन्निपातजित् ॥ ३० ॥

नागरमोथा, इलायची, चन्दन, खस, जीवनीय-
गणकी औषधि, त्रिकुटा, चीता, बेलकी छाल, कुटकी,
देवदारु, दारुहलदीकी त्वचा, पित्तपापडेकी छाल,
पटोलपत्र, नीम, वच, क्रोद्धि, चिरायता, सहिंजना,
त्रायमाण, फिटकरी, नागकेशर और अतीस ये सब
औषधि समान भाग लेकर चूर्ण बनावे । यह तित्त-
चूर्ण—हृदयरोग, शूल और सन्निपातको दूर करता
है ॥ २९ ॥ ३० ॥

पथ्य ।

फलतैलं विदध्याच्च वस्तौ वस्तिवि-
शारदः ॥ ३१ ॥ कौलिथधान्यैश्च
रसैर्यवान्नपानानि तीक्ष्णानि सश-
र्कराणि ॥ ३२ ॥

वस्तिमे—वस्तिकर्ममे कुशल फलोंका तेल कुलथी
और धनियेका घूप, जौ, तीक्ष्ण अन्नपान और खांड ये
सब प्रयोग करे ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

त्रिदोषज और कृमिजनितहृदय-
रोगके लक्षण ।

विद्यात्रिदोषन्त्वपि सर्वलिङ्गं तीव्रा-
त्तितोदं कृमिजं सकण्डूम ॥ ३३ ॥
उत्क्लेदः ष्ठीवनं तोदः शूलं हृल्लासक-
स्तमः । अरुचिः श्यावनेत्रत्वं शोथश्च
कृमिजे भवेत् ॥ ३४ ॥

जिसमे सर्व लक्षण मिलते हो वह त्रिदोषजहृदय
रोग जानना । जिसमे तीव्र नोचनेकेसी पीडा हो
और खुजली हो उसको कृमिजन्यहृदयरोग जानना ।
उत्क्लेद, वारवार थूकना, सुई चुभानेसरीखी पीडा,
शूल, उबकाई, अधकार, अरुचि, नेत्रोमे कृष्णता
और शोष्य ये कृमिजहृदयरोगके लक्षण हैं ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

उपद्रव ।

क्लामः सादो भ्रमः शोषो ज्ञेयास्ते-
षामुपद्रवाः । कृमिजे कृमिजातीनां
श्लेष्मिकाणाञ्च ये मताः ॥ ३५ ॥

क्लोम (तृपा लगनेका स्थान) में ग्लानि, भ्रम, और शोष थे हृदयरोगके उपद्रव हैं। कृमिजहृदयरोगके उपद्रव कफजकृमिरोगके समान होते हैं ॥ ३५ ॥

चिकित्सा ।

त्रिदोषजे लङ्घनमादितः स्यादन्नञ्च सर्वेषु हितं विधेयम् । हीनाधिकं मध्यमवेक्ष्य चैव कार्यं त्रयाणामपि कर्म शस्तम् ॥ ३६ ॥

त्रिदोषजहृदयरोगमें प्रथम लघन करावे तथा त्रिदोषनाशक अन्नपान देवे एव दोषोंकी प्रबलता, हीनता और समता विचारकर यथाविधिसे चिकित्सा करे ॥ ३६ ॥

हृद्रोगे कृमिजे पूर्व कुय्याल्लङ्घनपाचनम् । पश्चात्कृमिहरं कर्म कृमिरो-गोक्तमाचरेत् ॥ ३७ ॥

कृमिजनितहृदयरोगमें प्रथम लघन और पाचन करावे । पश्चात् कृमिरोगमें कही हुई कृमिनाशक चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ३७ ॥

कृमिजे च पिबेन्मृत्रं विडंगामयसंयुतम् । हृदि स्थिताः पतन्त्येव ह्यधस्तात्कृमयो नृणाम् ॥ ३८ ॥

कृमिजनितहृदयरोगमें वायुविडंग और कूटको एकत्र पीसकर गोमूत्रके साथ पान करे तो पेटमें स्थित अमाव्यकृमि गिर जाते हैं ॥ ३८ ॥

कृमिहृद्रोगिणां स्निग्धं भोजयेत्पिशितोदनम् । दध्ना च पललोपेतं त्र्यहं पश्चाद्विरेचयेत् ॥ ३९ ॥

कृमिजन्यहृदयरोगीको प्रथम स्निग्ध करके पश्चात् मासके माघ भात भक्षण करावे । और तीन दिनतक दहीके माघ मांस खिलाकर पीछे विरेचन देवे ॥ ३९ ॥

सुगन्धिभिः सलवणैर्योगैः साजाजिशर्करैः विडङ्गादूर्ध्वान्याम्लं पायथैत्सिद्धसुत्तमम् ॥ ४० ॥

अनुरूपकारकं सुगन्धित, नमकीन तथा जीरा धार गोट मिठे हुए ऐसे योगोंके साथ धानोंकी बार्जीको वायुविडंगाका चूर्ण डालकर पान करावे ॥ ४० ॥

यवात्रं वितरेच्चास्मै सविडङ्गमतः परम् ॥ ४१ ॥

भोजनके लिये वायुविडंगके साथ जौका अन्न देवे ॥ ४१ ॥

चूर्णं पुष्करजं लिह्यान्माक्षिकेण समायुतम् । हृच्छूलश्वासकासघ्नं क्षयहिक्कानिवारणम् ॥ ४२ ॥

पोहकरमूलके चूर्णको शहदमें मिलाकर चाटनेसे हृदयशूल, श्वास, खोंसी, क्षय और हिक्कारोग दूर होता है ॥ ४२ ॥

हिङ्गुसौवर्चलं विश्वं दाडिमं साम्लवेतसम् । चूर्णमुष्णाम्बुना पेयं श्वासहृद्रोगशान्तये ॥ ४३ ॥

हींग, कालानमक, सोंठ, अन्तार दाना और अमल वेत—इन सबको एकत्र पीसकर चूर्ण बनाकर गरमजलके साथ पान करनेसे श्वास और हृदयरोग शांत होता है ॥ ४३ ॥

हिं गूयगन्धाविडविश्वकृष्णाकुष्ठाभ्याचित्रकयावशूकम् । पिबेत्ससौवर्चलपुष्कराढ्यं यवाम्भसा शूलहृदामयघ्नम् ॥ ४४ ॥

हींग, वच, वायुविडंग, सोंठ, पीपल, कूठ, हरड, चीता, जवाखार, कालानमक और पोहकर मूल—इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण बनाकर जौकी कांजीके साथ पान करनेसे शूल और हृदयरोग दूर होता है ॥ ४४ ॥

दशमूलकषायन्तु लवणक्षारयोजितम् । कासं श्वासञ्च हृद्रोगं गुल्मशूलञ्च नाशयेत् ॥ ४५ ॥

दशमूलके काथमें सैंधानमक और जवाखारका चूर्ण डालकर पान करनेसे खोंसी, श्वास, हृदयरोग, गुल्म और शूल नष्ट होता है ॥ ४५ ॥

घृतेन दुग्धेन गुडाम्भसा वा पिबन्ति चूर्णं ककुभस्तवचोत्थम् । हृद्रोगजीर्णज्वररक्तपित्तं हत्वा भवेद्युश्चिरजीविनस्ते ॥ ४६ ॥

अर्जुनकी छालको चूर्णके घीके साथ, दूधके साथ अथवा गुडके शर्वतके साथ पान करनेसे हृदय-रोग, जीर्णज्वर और रक्तपित्तरोग दूर होते हैं ॥ ४६ ॥

हरितकी वचा राम्ना पिप्पल्यो विश्व-भेषजम् । शटी पुष्करमलञ्च चूर्णं ह-द्रोगनाशनम् ॥ ४७ ॥

हरड, वच, रायसन, पीपल, सोठ, कचूर और पोहकरमूल इनका चूर्ण-द्वहयरोगनाशक है ॥ ४७ ॥

पुटदग्धं हरिणशृङ्गं पिष्टं गव्येन स-र्पिषा पिवतः । हृत्पृष्ठशूलमचिराद्-पैति शान्तिं सुकष्टमपि ॥ ४८ ॥

सावद हिरनके सींगको पुटपाककी विधिसे जलाकर भस्म करलेवे, इस भस्मको घीसे पीसकर पीनेसे बहुत पुराना और कष्टसाध्य हृदयशूल तथा पृष्ठशूल नष्ट होता है ॥ ४८ ॥

तैलाज्यगुडविपक्वं चूर्णं गोधूम-पार्थजं वापि । पिवति पयसा यः स भवेज्जितसकलहृदामयः पुरुषः ॥ ४९ ॥

गेहूँ और अर्जुनकी छालके चूर्णका तेल, घी और गुडमें पकाकर दूधके साथ पान करनेसे सर्वप्रकारका हृदयरोग दूर होता है ॥ ४९ ॥

गोधूमककुभश्चूर्णं छागपयोगव्यस-र्पिषा पक्वम् । मधुशर्करासमेतं शम-यति हृद्रोगमुद्धतं पुंसाम् ॥ ५० ॥

गेहूँ और कोहकी छालके चूर्णको ककरीके दूध और गौके घीमें पकाकर शहद और खाड मिलाकर सेवन करनेसे दारुण हृदयरोग दूर होता है ॥ ५० ॥

वल्लभघृत ।

मुख्यं शतार्द्धं तु हरितकीनां सौव-र्चलस्यापि पलद्वयञ्च । सिद्धं घृतं वल्लभकं हि नाम्ना हृत्कासगुल्मोद-रमारुतघ्नम् ॥ ५१ ॥

उत्तमहरड ५० और कालानमक ८ तोले, इनके कल्कके द्वारा घृतको सिद्ध करे । यह घृत-हृदयरोग,

खाँसी, गुल्म, उदररोग और वातरोगको दूर करत है ॥ ५१ ॥

क्षीरवल्लभघृत ।

शतार्धमभयानान्तु सौवर्चलपलद्व-यम् । पचेत्कल्कैर्घृतप्रस्थं दत्त्वा क्षीरं घृतगुणम् । घृतं वल्लभकं नाम्ना श्रेष्ठं स्यादपतन्त्रके ॥ ५२ ॥

हरड ५०, कालानमक ८ तोले इनके कल्कके द्वारा एक प्रस्थ घीको चौगुने दूधमें पकावे । यह क्षीरवल्लभघृत-हृदयरोग और अपतत्ररोगको दूर करता है ॥ ५२ ॥

अर्जुनघृत ।

पार्थस्य कल्कं स्वरसेन सिद्धं शस्तं घृतं सर्वहृदामयघ्नम् ॥ ५३ ॥

अर्जुनके काथ और कल्कके द्वारा घृतको पकावे यह घृत-सर्वप्रकारके हृदयके रोगोंको दूर करता है ॥ ५३ ॥

बलाघृत ।

घृतं बला नागबलार्जुनांबुसिद्धं स-यष्टीमधुकल्कपादम् । हृद्रोगशूलं क्षतरक्तपित्तकासानिलासृक्छमयत्यु-दीर्णम् ॥ ५४ ॥

खिरँटीके और नागबलाके और अर्जुनके काथमें चौथाई भाग मुलैठीका कल्क डालकर घृतको सिद्ध करे । यह घृत-हृदयरोग, शूल, क्षत, रक्तपित्त खाँसी और दारुणवातरक्त को दूर करता है ॥ ५४ ॥

इति श्रविंगसेने भापाटीकायां हृदय-रोगाधिकार समाप्तः ॥ ३३ ॥

अथ उरोग्रहाधिकारः ।

उरोग्रहनिदान और सम्प्राप्तिलक्षण । अत्यभिष्यान्दि गुर्वन्नशुष्कपूत्यमि-षाशनात् । साम्नं मांसं यकृतप्लिहिं

सद्यो वृद्धिं यथा गतम् ॥ १ ॥ उरो-
ग्रहं तदा कुक्षौ कुरुतः कफमारुतौ ।
सस्तम्भं सरुजं घोरं रूक्षं स्पर्शासहं
गुरुम् ॥ २ ॥ आध्मानकुक्षिहृच्छो-
थवातविण्मूत्ररोधता । तन्द्रारोचक-
शूलानि तत्र लिङ्गानि निर्दिशेत् ॥ ३ ॥

अत्यन्त अभिष्यंदी पदार्थ, भारी अन्न और सूखे
तथा दुर्गंधित मांसको भक्षण करनेसे, सांस और
रुधिरके संयोगसे यकृत और प्लीहा, जिससमय
वृद्धिको प्राप्त होते है, उसी समय कफ और वात
कुक्षिमें जाकर उरोग्रहरोगको उत्पन्न करते है।स्तम्भ,
घोर पीडा, ज्वर, रूक्षता, स्पर्शको न सहसकना, गुरुता,
आध्मान, कुक्षि और हृदयमें सूजन, अधोवायुका
अवरोध, मलमूत्रका रुकजाना, तन्द्रा, अरुचि और
शूल ये सब लक्षण उरोग्रहरोगमें होते है ॥१॥२॥३॥

चिकित्सा ।

अत्राशु स्वेदनं युक्त्या दहनं रक्तमो-
क्षणम् । तीक्ष्णैर्निरूहणं चैकं क्रमान्त-
त्क्षणमादरात् ॥ ४ ॥ पुत्रजीवकशि-
ग्रूथाः सूर्यावर्तबलोद्भवाः । रसा
एकैकशः कोष्णाद्विशो वा रामठा-
न्विताः ॥ ५ ॥ सपञ्चलवणाः पेयाः
त्रिवृद्दुडसुकल्पिताः । तं प्रवृत्तं यथा-
लाभं मूत्रतैलसुरासवैः ॥ ६ ॥ दध्या-
म्लवेतसक्षारान्सरामठसचित्रकान् ।
पिबेत्तैलारनालाभ्यामुरोग्रहनिवृत्तये ॥
७ ॥ यथातुरेणात्र कृतस्य कर्मणो
विधेर्विरोधो न भवेन्मनागपि । यथा
बलं वीक्ष्य च शुद्धविग्रहं तथाविधं
पथ्यमिति प्रयोजयेत् ॥ ८ ॥

उरोग्रहरोगमें प्रथम युक्तिपूर्वक स्वेद, लोहादिकी
शलाकाके द्वारा दाग, रक्तमोक्षण और तीक्ष्ण औष-
धियोंके द्वारा निरूह वस्ति ये सब कर्म क्रमसे प्रयोग

करे। जियापोता, सहिजना, हुलहुला और खिरैटी
इनमेंसे किसी एकके रसको गरम करके उसमें हींग
और पांचोन्नमक डालकर पान करनेसे उरोग्रह शांत
होता है । अथवा निसोत और गुड एकत्र कर गोमूत्र,
तेल, सुरा या भासवके साथ पीसकर सेवन करनेसे,
या दही, अमलवेंत, जवाखार, हींग और चीता
समान भाग लेकर तेल और कांजीके साथ पान
करनेसे उरोग्रहरोग दूर होता है । उरोग्रहरोगीको
बलके अनुसार वमन, विरेचनादिके द्वारा शुद्धकर
रोगको दूर करनेवाली पथ्य देवे ॥ ४-८ ॥

इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां उरोग्रह-

निदानचिकित्साधिकार

समाप्त ॥ ३४ ॥

मूत्रकृच्छ्ररोगाधिकार ।



मूत्रकृच्छ्रका निदान ।

व्यायामतक्षिणीषधरूक्षमद्यप्रसङ्गनि-
त्यद्भुतपृष्टयानात् । आनूपमत्स्याध्य-
शनादजीर्णात्स्युर्मूत्रकृच्छ्राणि नृणां
तथाष्टौ ॥ १ ॥

व्यायाम (दंड, कसरत आदि), तीक्ष्ण औषधि-
योका सेवन, खूबे पदार्थोंका भक्षण, सदैव मद्यपान
करना, नित्य मैथुन, घोडे आदिपर चढकर दौडना,
अधिक जलवाले या अनूप देशकी मछलियोंको
खाना, भोजनपर भोजन करना और अजीर्ण-इन
कारणोंसे मनुष्योंके आठप्रकारका मूत्रकृच्छ्ररोग
उत्पन्न होता है ॥ १ ॥

संप्राप्ति ।

पृथग्मलाः स्वैः कुपिता निदानैः
सर्वेऽथवा कौपमुपेत्य वस्तौ । मूत्रस्य
मार्गं परिपीडयन्ति यदा तदा मूत्र-
यतीह कृच्छ्रात् ॥ २ ॥

अपने अपने कारणोंसे वातादिदोष अलग २
कुपित होकर अथवा सब एकसाथ कुपित होकर
मूत्राशयमें जाकर मूत्रके मार्गको पीडित करते है, तब
मनुष्य बड़े कष्टसे मूत्रता है ॥ २ ॥

वातोत्पन्नमूत्रकृच्छ्रके लक्षण ।

तीव्रा हि रुग्णवस्तिमेते स्वल्पं
मुहुर्मूत्रयतीह वातात् ।

वातजमूत्रकृच्छ्रमें वंक्षण, वस्ति और लिंगमें अत्यंत पीडा होती है और बारबार थोडा थोडा मूत्र उतरता है ।

पित्तोत्पन्नमूत्रकृच्छ्रके लक्षण ।

पतिं सरक्तं सरुजं सदाहं कृच्छ्रं मु-
हुर्मूत्रयतीह पित्तात् ॥ ३ ॥

पित्तजमूत्रकृच्छ्रमें पीडा, किंचिन् लाल, पीडासहित और दाहयुक्त थोडा २ अत्यन्त कठिनतामें मूत्रता है ॥ ३ ॥

कफजमूत्रकृच्छ्रके लक्षण ।

वस्तेः सलिङ्गस्य गुरुत्वशोथौ मूत्रं
सपिच्छं कफमूत्रकृच्छ्रे ।

कफजमूत्रकृच्छ्रमें वस्ति और लिंगमें भारपिन हो तथा सूजन और मूत्रमें पिच्छिलता होती है ।

सन्निपातोद्भवमूत्रकृच्छ्रके लक्षण ।

सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपाताद्भवं-
ति तत्कृच्छ्रतमञ्च कृच्छ्रम् ॥ ४ ॥

त्रिदोषजमूत्रकृच्छ्रमें सब लक्षण होते हैं । यह अत्यन्त कष्टसाध्य है ॥ ४ ॥

शल्यजमूत्रकृच्छ्रके लक्षण ।

मूत्रवाहिषु शल्येन क्षतेष्वभिहतेषु
च । मूत्रकृच्छ्रं तदाघाताज्जायते
भृशदारुणम् । वातकृच्छ्रेण तुल्यानि
तस्य लिङ्गानि निर्दिशेत् ॥ ५ ॥

मूत्रके बहानेवाली जो नाडियां हैं उनमें किसी प्रकारका घाव होनेसे अथवा चोट लगनेसे अत्यन्त भयंकर मूत्रकृच्छ्र उत्पन्न होता है । इसके लक्षण वातजमूत्रकृच्छ्रके समान होते हैं ॥ ५ ॥

पुरीषजमूत्रकृच्छ्रके लक्षण ।

शकृतस्तु प्रतीघाताद्वायुर्विगुणतां
गतः । आध्मानं वातशूलञ्च मूत्रस-
ङ्गं करोति च ॥ ६ ॥

मलके वेगको रोकनेसे वायु कुपित होकर पेटका फूलना, वातशूल और मूत्रका अवरोध करती है ॥ ६ ॥

अश्मरीजन्यमूत्रकृच्छ्रके लक्षण ।

अश्मरीहेतुतत्पूर्वं मूत्रकृच्छ्रमुदाहरे-
त् ॥ ७ ॥

जो मूत्रकृच्छ्र अश्मरीके कारणोंसे हांता है उसको अश्मरीमूत्रकृच्छ्र कहते हैं ॥ ७ ॥

शुक्रजमूत्रकृच्छ्रके लक्षण ।

शुक्रे दोषैरुपहते मूत्रमार्गं विधारि-
ते । सशुक्रं मूत्रयेत्कृच्छ्राद्वास्तिमेहन-
शूलवान् ॥ ८ ॥

वातादिक दोषोंसे वीर्य दूषित होकर मूत्रमार्गको रोक देता है तब मनुष्यके मूत्राशय और लिंगमें शूल होता है और वह शुक्रसंयुक्त कठिनतासे मूत्रता है ॥ ८ ॥

अश्मरी, शर्करा इनदोनोंका अवांतरभेद ।

अश्मरी शर्करा चैव तुल्यसम्भवल-
क्षणे । विशेषणं शर्करायाः शृणु
कीर्तयतो मम ॥ ९ ॥ पच्यमानाश्म-
री पित्ताच्छोष्यमाणा च वायुना ।
विमुक्तकफसन्धाना क्षरन्ती शर्करा
मता ॥ १० ॥ हृत्पीडा वेपथुः शूलं
कुक्षावभिस्तु दुर्बलः । तथा भवति
मूर्च्छा च मूत्रकृच्छ्रञ्च दारुणम् ॥ ११ ॥

अश्मरी और शर्कराके लक्षण समान ही हैं, परन्तु कुछ थोडासा अन्तर है सो कहते हैं। पित्तसे पकनेवाली वातसे सूखनेवाली और कफसे छूटनेवाली ऐसी पथरी मूत्रके मार्गसे रेतके समान झरने लगे, उसको शर्करा कहते हैं । उस शर्कराके कारण हृदयमें पीडा, कम्प, कोखमें शूल, मन्दाग्नि, मूर्च्छा और घोर मूत्रकृच्छ्ररोग उत्पन्न होता है ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥

चिकित्सा ।

अभ्यञ्जनस्नेहानिरूहवस्तिस्वेदोपना-
होत्तरवस्तिसेकान् । स्थिरादिभिर्वा-
तहरैश्च सिद्धान्दद्याद्रसांश्चानिलमू-
त्रकृच्छ्रे ॥ १२ ॥

वायुसे मूत्रकृच्छ्र हुआ हो तो वैद्य रोगीका अभ्यंग (तैलादिकी मालिश), स्नेहपान, निरुहवस्ति तथा उत्तरवस्ति देवे वस्तिस्थानके ऊपर योग्य औषधियोंको वैधवावे, घी आदिसे वस्तिस्थानको सिद्ध करावे तथा वातनाशक जालपर्णी आदि पदार्थोंसे पकाये हुए रस पिलावे ॥ १२ ॥

अमृता नागरा धात्री वाजिगन्धा त्रिकण्टकम् । प्रपिबेद्वातरोगार्तः शूलवान्मूत्रकृच्छ्रवान् ॥ १३ ॥

गिलोय, सोठ, आमले, असगन्ध और गोखरू इनका काथ बना कर पान करे तो वातसम्बन्धीय रोग, शूल और मूत्रकृच्छ्ररोग नष्ट होता है ॥ १३ ॥

पुनर्नवाद्यमिश्रक ।

पुनर्नवैरण्डशतावरीभिः पत्तूरवृश्चीरबलाशमभिद्धिः । द्विपञ्चमूलेन कुलित्यकेन यवैश्च तोयोत्कथिते कषाये १४ ॥ तैलं वराहर्क्षवसाघृतञ्च तैरेव कल्कैर्लवणैश्च सिद्धम् । तन्मात्रयात्र प्रतिहन्ति पीतं शूलान्वितं नाहतमूत्रकृच्छ्रम् ॥ १५ ॥

पुनर्नवा. अण्ड, शतावर, पतंग, पुनर्नवा, खिरैंटी. पापाणभेद, दगमूल, कुलथी और जौ इनका काथ बनाकर उस काथमें इन्हीं पदार्थोंका कल्क डाल कर तथा सैधानमक डाल कर पकाया हुआ तैल, और सुअरकी चर्बी, रीछकी चर्बी और घी इनको उचित मात्रानुसार पान करनेसे शूलसहित वायुसम्बन्धी मूत्रकृच्छ्ररोग दूर होता है ॥ १४ ॥ १५ ॥

पित्तजमूत्रकृच्छ्रकी चिकित्सा ।

सेकावगाहाः शिशिराः प्रदेशा त्रैप्पो विधिर्वस्तिपयोविकाराः । द्राक्षाविदारीक्षुरसैर्धतैश्च कृच्छ्रेषु पित्तप्रभवेषु कुर्यात् ॥ १६ ॥

पित्तजमूत्रकृच्छ्रमें वैद्य रोगीके वस्तिस्थानपर जल, चंदन आदि शीतल पदार्थोंका सेचन करावे, तथा शीतल जलमें घुसकर स्नान करावे, खस, चंदनादि शीतल पदार्थोंका लेप करे, म्रीष्मक्तुके अनुसार उप-

चार करे और दाखका रस, विदारीकंदका रस, ईखका रस तथा घी इनकी उत्तरवस्ति लगावे तथा इन्हीं पदार्थोंको डालकर दूधके बने पदार्थ खिलोव ॥ १६ ॥

तृणपंचमूल ।

कुशः काशः शरो दर्भ इक्षुश्चेति तृणोद्भवम् । पित्तकृच्छ्रहरं पञ्चमूलं वस्तिविशोधनम् ॥ १७ ॥ एतत्सिद्धं पयः पीतं मेढ्रं हन्ति शोणितम् ॥ १८ ॥

कुशा, काँस, रामसर, डाभ और इग्व इन पांचोंकी जड़को तृणपंचमूल कहते हैं । इस पंचमूलका उपयोग करनेसे पित्तसम्बन्धी मूत्रकृच्छ्र नष्ट होता है और मूत्राणय शुद्ध होता है । इस पंचमूलको दूधमें औंटा कर पान करनेसे लिगमे रुधिरका गिरना बंद होता है ॥ १७ ॥ १८ ॥

शतावर्यादिकाथ ।

शतावरीकासकुशाश्वदंष्ट्राविदारिशालीक्षुकशेरुकाणाम् । काथं सुशीतं मधुशर्कराभ्यां युक्तं पिबेत्पैत्तिकमूत्रकृच्छ्रे ॥ १९ ॥

शतावर, काँस, कुशा, गोखरू, विदारीकंद, शालिचावल, ईख और कगेल इनका काथ बना कर शीतल करके उसमें शहद और घी डाल कर पीनेसे पित्तज मूत्रकृच्छ्ररोग दूर होता है ॥ १९ ॥

एर्वारुबीजादिपान ।

एर्वारुबीजं मधुकं सदावीं पैत्ते पिबेत्तदुलधावनेन । दावीं तथैवामलकीरसेन समाक्षिकं पित्तकृते च पित्ते २०

खीरेके बीज, मुलैठी और दारुहलदी इनको चावलके जलमें पीस कर पान करनेसे अथवा दारुहलदीको पीस कर आमलोके रसके साथ शहद मिलाकर पान करनेसे पित्तजनित मूत्रकृच्छ्ररोग दूर होता है ॥ २० ॥

हरीतक्यादिकाथ ।

हरीतकीगोधुरराजवृक्षपाषाणभिद्धन्वयवासकानाम् । काथं पिबेन्मा-

क्षिकसंप्रयुक्तं कृच्छ्रे सदाहे सरुजे
विबन्धे ॥ २१ ॥

हरड, गोखरू, अमलतास, पापाणभेद और धमा-
सा इनका काथ बना कर शहद डाल कर पान करनेसे
पित्तज मूत्रकृच्छ्र, दाह, विबन्ध और पीडा शांत
होती है ॥ २१ ॥

शतावरीघृत ।

शतावरीकासकुशाश्वदंष्ट्राविदारि-
केक्ष्वामलकैश्च सिद्धम् । सर्पिः पयो
वा सितया विमिश्रं कृच्छ्रेषु पित्तप्र-
भवेषु योज्यम् ॥ २२ ॥

शतावर, काँस, कुशा, गोखरू, विदारीकन्द, ईख
और आमले इनके काथ और दूधसे घृतको पकावे ।
फिर इस घृतमें मिश्री मिलाकर सेवन करे तो पित्तज-
नित मूत्रकृच्छ्ररोग दूर होता है ॥ २२ ॥

त्रिकण्टाद्यघृत ।

त्रिकण्टकैरण्डकुशाद्यभीरुकर्कारुके-
क्षुस्वरसेन सिद्धम् । सर्पिर्गुडाद्धाश-
युतं प्रयोज्यं कृच्छ्राशमरीमूत्रविघा-
तदोषे । अयं विशेषण पुरा विधेयः
सर्वाशमरीणां प्रचुरः प्रयोगः ॥ २३ ॥

गोखरू, अरंड, कुशाभदिकी जड, शतावर, ककडी-
के बीज और ईखका स्वरस इनको घीमें पकावे, फिर
इसमें आधा भाग गुड डाल कर खाय तो इससे मूत्र-
कृच्छ्र, पथरी और मूत्राघात दूर होता है । इस उत्तम
प्रयोगको विशेषकर सब प्रकारकी पथरीमें प्रयोग
करना चाहिए ॥ २३ ॥

कफजमूत्रकृच्छ्रचिकित्सा ।

क्षारोष्णतीक्ष्णौषधमन्नपानं स्वेदो य-
वान्नं वमनं निरूहाः । तक्रश्च ति-
क्तोष्णसिद्धतैलान्यभ्यंगपानं कफमू-
त्रकृच्छ्रे ॥ २४ ॥

क्षार, उष्ण तथा तीक्ष्ण औषधि, अन्नपान, स्वेदन,
जौका भोजन, वमन, निरूहणवस्ति, तक्र और कडवे
पदार्थोंसे और उष्ण पदार्थोंसे पकाये हुए तेलका अभ्यंग

करनेसे अथवा उक्त तेलको पान करनेसे कफज मूत्र-
कृच्छ्र रोग नष्ट होता है ॥ २४ ॥

मूत्रेण सुरया वापि कदलीस्वरसेन
वा । कफकृच्छ्रविनाशाय सूक्ष्मपिष्ट्वा
त्रुटिं पिबेत् ॥ २५ ॥

अथवा छोटी इलायचीको गोमूत्रके साथ या सुराके
साथ किवा केलेके स्वरसमें वारीक पीसकर गोली
बना कर सेवन करे तो कफजनितमूत्रकृच्छ्र रोग दूर
होता है ॥ २५ ॥

तत्रेण युक्तं शितिवारकस्य बीजं
पिबेन्मूत्रविघातहेतोः । पिबेत्तथा तं-
डुलधावनेन प्रवालचूर्णं कफमूत्रकृ-
च्छ्रे ॥ २६ ॥

शिरिआरिके बीजोको तक्रमे पीस कर पान कर-
नेसे मूत्राघातरोग दूर होता है मूँगेकी भस्म पीस कर
चावलोंके जलके साथ पान करनेसे कफजमूत्रकृच्छ्र-
रोग दूर होता है ॥ २६ ॥

त्रिदोषजमूत्रकृच्छ्रकी चिकित्सा ।
सर्वं त्रिदोषप्रभवे च कृच्छ्रे स्थाना-
नुपूर्व्या प्रसमीक्ष्य कार्थ्यम् । त्रिभ्यो-
ऽधिके प्राग्बमनं कफे स्यात्पित्ते विरे-
कः पवने च वस्तिः ॥ २७ ॥

तीनों दोषोंसे मूत्रकृच्छ्र हुआ होय तो वायुके
स्थानकी आनुपूर्वीपनरो अर्थात् वायुसे लेकर जो कफ-
पर्यंत उपचार कहे हैं उन सबको मिश्रित करके
प्रयोग करे विशेष कर दोषोंकी अवस्था देख कर
मिश्रित उपचार करे। त्रिदोषज मूत्रकृच्छ्रमें जो कफा-
धिक्य हो तो प्रथम वमन, पित्त अधिक हो तो विरे-
चन और वाताधिक्यमें वस्ति प्रदान करे ॥ २७ ॥

बृहतीधावनीपाठायष्टीमधुकलिङ्ग-
काः । पाचनीयो बृहत्यादिः कृच्छ्र-
दोषत्रयापहः ॥ २८ ॥

बड़ी कटेरी, पृष्टपर्णी, पाठ, मुलैठी और इन्द्रजा
इनका काथ बनाकर पीनेसे त्रिदोषजनित मूत्रकृच्छ्र
रोग दूर होता है ॥ २८ ॥

गुडेन मिश्रितं क्षीरं कटूष्णं कामतः
पिबेत् । मूत्रकृच्छ्रेषु सर्वेषु शर्करा-
वातरोगनुत् ॥ २९ ॥

अथवा गुडको दूधमें डालकर किंचित् उष्ण करके
इच्छानुसार पान करनेसे सर्व प्रकारके मूत्रकृच्छ्र,
शर्करा और वातरोग नष्ट होते हैं ॥ २९ ॥

अभिघातजनितचिकित्सा ।

मूत्रकृच्छ्रेऽभिघातोत्थे वातकृच्छ्रक्रिया
मता । पञ्चवत्कलकृच्छ्रेपः कवोष्णो-
ऽत्र प्रशस्यते ॥ ३० ॥

चोट आदिके लगनेसे जो मूत्रकृच्छ्र उत्पन्न हुआ
हो तो वातजमूत्रकृच्छ्रके समान चिकित्सा करे ।
पंचक्षीरीवृक्षोंकी छालको जलमें पीस कर कुछएक
गरम करके मूत्राशयपर लेप करनेसे अभिघातजनित
मूत्रकृच्छ्ररोग दूर होता है ॥ ३० ॥

मद्यं पिबेद्वा ससितं ससर्पिः शृतं
पयश्चापि सिताज्ययुक्तम् । धात्रीरसं
चक्षुरसं पिबेद्वा कृच्छ्रे सरक्ते मधुना
विमिश्रम् ॥ ३१ ॥

मूत्रकृच्छ्रमें जो रुधिरसहित मूत्र उतरता हो तो
घी, मिश्री तथा शहद इनके साथ मिलाकर मद्य पीवे
अथवा औटाया हुआ दूध शहदके साथ तथा आधा-
भाग मिश्री डाल कर पीवे । अथवा आमलोका रस
और ईस्रकी रस इनको मिला कर उसमें शहद डाल-
कर पान करे ॥ ३१ ॥

शुक्रजमूत्रकृच्छ्रकी चिकित्सा ।

लेह्यं शुक्रविवन्धोत्थे शिलाजतु स-
माक्षिकम् । वृष्यैर्बृंहितधातोश्च वि-
धेयाः प्रमदोत्तमाः ॥ ३२ ॥

वीर्यदोषसे मूत्रकृच्छ्र हुआ हो तो शिलाजीतको
शहदमें मिला कर चाटे । इससे वीर्यदोषजनित
मूत्रकृच्छ्र रोग दूर होता है । अथवा इसमें रोगीको
पुष्टिकारक पदार्थ भक्षण करा कर वीर्यको बढ़ावे,
पश्चात् उत्तम स्त्रियोसे रमण करावे ॥ ३२ ॥

एलाहिङ्गयुतं क्षीरं सर्पिमिश्रं पिबे-
न्नरः । मूत्रहृद्रोगशुद्धयर्थं शुक्रदोषह-
रं परम् ॥ ३३ ॥

इलायची, हींग और घी इनको दूधमें डाल कर
पान करनेसे मूत्र और हृदय शुद्ध होता है तथा
वीर्यके दोष नष्ट होते हैं ॥ ३३ ॥

मलजनितमूत्रकृच्छ्ररोगके लक्षण ।

स्वेदचूर्णक्रियाऽभ्यङ्गवस्तयः स्युः
पुरीषजे । कृच्छ्रे तत्र विधिः कार्यो
सर्वशुक्रविवन्धजित् ॥ ३४ ॥

मलके रोकनेसे जो मूत्रकृच्छ्र हुआ हो तो स्वेदन-
योग्य चूर्णोंका सेवन, तैलादिककी मालिश और वस्ति
कर्म करे । तथा शुक्रविवन्धनाशक समस्त विधि क-
रनी चाहिए ॥ ३४ ॥

काथो गोक्षुरबीजस्य यवक्षारयुतः
सदा । मूत्रकृच्छ्रं शकृजन्म पीतः शी-
घ्रं नियच्छति ॥ ३५ ॥

गोखरुओंका काथ बना कर उसमें जवाखार
डाल कर पान करनेसे पुरीषजनित मूत्रकृच्छ्र दूर होता
है ॥ ३५ ॥

अश्मरीजनितमूत्रकृच्छ्रकी चिकित्सा ।

सप्तच्छदारग्वधकेतकैलाः निम्बः
करञ्जः कुटजो गुडूची । साध्या जले
तेन पचेद्यवागूं सिद्धं कषायं मधुसं-
युतं वा ॥ ३६ ॥

सतौना, अमलतास, केतकी, इलायची, नीमकी
छाल, करंज, कुडकी छाल और गिलोय इनका काथ
बनाकर उसमें शहद डालकर सेवन करे अथवा इस
काथसे यवागू बना कर खाय तो पथरीसे उत्पन्न
हुआ मूत्रकृच्छ्र नष्ट होता है ॥ ३६ ॥

एवार्बुबीजकल्कश्च श्लक्ष्णं पिष्ट्वाक्षसं-
मितः । धान्याम्ललवणैः पेयो मूत्र-
कृच्छ्रविनाशनः ॥ ३७ ॥

अथवा एक तोला प्रमाण ककडीके बीजोंको
पीस कर कांजी और सैधानसक मिलाकर सेवन
करनेसे मूत्रकृच्छ्र नष्ट होता है ॥ ३७ ॥

त्रिकण्टकारग्वधदर्भकाशदुरालभाप-
र्वतभेदपथ्याः । निघ्नंति पीता म-
धुनाश्मरीन्तु संप्राप्तमृत्योरपि मूत्र-
कृच्छ्रम् ॥ ३८ ॥

गोखरू, अमलताल, डाभ, काँस, धमासा, पापाण-
भेद और हरड़-इनको एकत्र पीसकर शहद मिलाकर
पान करनेसे अश्मरीजनित संप्राप्त मृत्युवाला भी मूत्र-
कृच्छ्ररोग दूर होता है ॥ ३८ ॥

निर्दग्धिकायाः स्वरसं कुडवं मधुसं-
युतम् । मूत्रदोषहरं पीत्वा नरः स-
म्पद्यते सुखम् ॥ ३९ ॥

कटेरीके सोलह तोले स्वरसमे शहद डालकर पान
करनेसे मूत्रकृच्छ्ररोगी अच्छा होता है ॥ ३९ ॥

कषायोऽतिबलामूलसाधितोऽशेषकृ-
च्छ्रजित् ।

खिरँटीकी जड़का काथ बनाकर पान करनेसे मूत्र-
कृच्छ्ररोग नष्ट होता है ।

पीतञ्च त्रपुसीबीजं सतिलाज्यं पयो-
न्वितम् ॥ ४० ॥

खीरेके बीज और तिल इनको एकत्र पीसकर घी
और दूधके साथ पान करनेसे मूत्रकृच्छ्ररोग दूर होता
है ॥ ४० ॥

त्रिफलायाः सुपिष्टायाः कल्कं कोल-
समन्वितम् । वारिणा लवणीकृत्य
पिवेन्मूत्ररुजापहम् ॥ ४१ ॥

त्रिफला और बेर इनका कल्क बना कर उसमें
किंचिन् नमक डाल कर पान करनेसे मूत्रकृच्छ्र रोग
नष्ट होता है ॥ ४१ ॥

मवोरुवूकैस्तृणपञ्चमूलपाषाणभेदैः स-
शतावरीभिः । कृच्छ्रेषु गुग्गुल्व-
भयाविमिश्रैः कृतः कषायो गुडसं-
प्रयुक्तः ॥ ४२ ॥

जाँ, अडकी जड़, तृणपंचमूल, पापाणभेद, शता-
वर गूगल और हरड़-इनका काथ बनाकर उसमें
गुड डालकर पान करनेसे मूत्रकृच्छ्र रोग नष्ट होता
है ॥ ४२ ॥

मूलानि कुशकाशेषुशराणां चक्षुवा-
लिकाः । मूत्राघातेऽश्मरीकृच्छ्रे पञ्च-
मूली तृणात्मिका ॥ ४३ ॥

कुशा, काँस, ईख, रामसर और इक्षुवालिका (एक
प्रकारके तृण), इन पाँचोंको तृणपंचमूल कहते हैं ।
इस तृणपंचमूलको जलमें पीसकर सेवन करनेसे मूत्रा-
घात और अश्मरी दूर होती है ॥ ४३ ॥

गुडमामलकं पिष्टं श्रमघ्नं तर्पणं प्रिय-
म् । पित्तासृग्दाहशूलघ्नं मूत्रकृच्छ्र-
निवारणम् ॥ ४४ ॥

गुड और आमलोको एकत्र मिला कर सेवन करना
श्रमनाशक, तृप्तिकारक, प्रिय तथा रक्तपित्त, दाह, शूल
और मूत्रकृच्छ्रनाशक है ॥ ४४ ॥

सितातुल्यो यवक्षारः सर्वकृच्छ्रप्रणा-
शनः । द्राक्षासितोपलाकल्कं कृ-
च्छ्रघ्नं मस्तुना युतम् ॥ ४५ ॥

जवाखारको मिश्रीके साथ सेवन करनेसे सर्व प्र-
कारका मूत्रकृच्छ्ररोग दूर होता है। दाख और मिश्री-
के कल्कको दहीके पानीके साथ सेवन करनेसे मूत्र-
कृच्छ्र रोग शान्त होता है ॥ ४५ ॥

विदारीशारिवाद्यागशृङ्गीवत्सादिनी-
निशाः । कृच्छ्रं पित्तानिलं हन्ति
वल्लिजं पञ्चमूलकम् ॥ ४६ ॥

विदारीकंद, सारिवा, मेढाशिगी, गिलोय, हलदी
और वायविडंग तथा तृणपंचमूल-इनको जलमें पीस
कर पान करनेसे वातपित्तजनित मूत्रकृच्छ्र रोग दूर
होता है ॥ ४६ ॥

एलाशमभेदकशिलाजतुपिप्पलीना-
मेर्वारुबीजलवणोत्तमकुंकुमानाम् ।
चूर्णानि तण्डुलजले लुलितानि पी-
त्वा प्रत्यग्रमृत्युरपि जीवति मूत्रकृ-
च्छ्री ॥ ४७ ॥

इलायची, पापाणभेद, शिलाजीत, पीपल, खीरेके
बीज, सैधानमक और केसर-इनका चूर्ण करके चाव

लोके जलके साथ सेवन करनेसे मृत्युको प्राप्त हुआ भी मूत्रकृच्छरोगी भारोग्य होता है ॥ ४७ ॥

अयोरजः श्लक्ष्णपिष्टं मधुना सह
योजितम् । मूत्रकृच्छ्रं निहन्त्याशु
त्रिभिल्लैर्हर्न संशयः ॥ ४८ ॥

लोहेकी भस्मको बारीक पीसकर शहदमे मिलाकर तीन दिनतक सेवन करनेसे निःसदेह मूत्रकृच्छरोग दूर हो जाता है ॥ ४८ ॥

सुकुमारकुमारक पुनर्नवादिलेह ।
पुनर्नवामूलतुलां दर्भमूलं शतावरी ।
बला तुरगगन्धा च तृणमूलं त्रिक-
ण्टकम् ॥ ४९ ॥ विदारिगन्धानागा-
ह्वगुडूच्यतिबलास्तथा । पृथग्दश-
पलान्भागानपां द्रोणे विपाचयेत् ॥ ५० ॥
तेन पादावशेषेण घृतस्यार्द्धाढकं प-
चेत् । मधुकं शृङ्गवेरश्च द्राक्षासैन्ध-
वपिप्पली ॥ ५१ ॥ द्विपलानि पृथ-
ग्दत्त्वा यवान्याः कुडवं तथा । त्रि-
शहडपलान्यत्र तैलस्यैरण्डजस्य
च ॥ ५२ ॥ एतदीश्वरपुत्राणां प्रा-
ग्भोजनमनिन्दितम् । राज्ञां राज-
समानानां बहुस्त्रीपतयश्च ये ॥ ५३ ॥
मूत्रकृच्छ्रे कटीशूले तथा गाढपुरी-
षिणाम् । भेटुवंक्षणशूले च योनि-
शूले च शस्यते ॥ ५४ ॥ यथो-
क्तानाश्च गुल्मानां वातशोणित-
जाश्च ये । बल्यं रसायनं शीतं सुकु-
मारकुमारकम् । पुनर्नवाशते द्रोणे
देयोऽन्येष्वपि चापरः ॥ ५५ ॥

पुनर्नवाकी जड चार सौ तोले एवं डाभकी जड, शतावर, खिरैटीकी जड, असगध, तृणपंचमूल, गोखरु विदारीकन्द, नागकेसर, गिलोय और कधी—ये प्रत्येक चालीस चालीस तोले लेकर एक हजार चौबीस (१०२४) तोले जलमे पकावे । जब पकते पकते जल चौथाई भाग बाकी रह जाय तब उतार कर छान

लेंवें । फिर इस द्वायमे एक सौ अट्टारिस (१२८) तोले घृत पकावे इसमें मुंठठी, अदरग्व, दास, सैधानमक और पागल ये प्रत्येक आठ २ तोले पीस कर डालें । अजचायन १ कुडव गुड १२० तोले, अण्डीका तेल १२० तोले डालकर विधिपूर्वक इसका पाक करो । इस सुकुमारकुमार अव-लेहको श्रीमानोंके पुत्रोंको भोजनके पहिले सेवन करना उत्तम है । यह घृत—राजा, राजाके समान और जिनके बहुतसी स्त्रियें हैं ऐसे मनुष्योंको सेवन करना चाहिए । तथा मूत्रकृच्छ्र, कटिशूल, मलवद्ध, लिंगशूल, वक्षणशूल, योनिशूल, गुल्मरोग और वात-रक्त—इन सब रोगोंमे हितकारी है । यह बलकारक, रसायन, शीतल और कुमारो (बालकों) को सुकु-मार करनेवाला है (कोई कहते हैं कि पुनर्नवेको एव अन्यान्य औषधियोंको सो द्रोण जलमे पकाना चाहिये) ॥ ४९—५५ ॥

मूत्राघातविधानमप्यत्र कार्यम् ।

मूत्रकृच्छरोगमे मूत्राघातरोगोक्चिकित्साभी
करनी चाहिए ।

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां
कृच्छ्रनिदानचिकित्साधिकार
समाप्त ॥ ३५ ॥

अथ मूत्राघातरोगाधिकार ।

मूत्राघातका निदान ।

जायन्ते कुपितैर्दोषैर्मूत्राघातास्रयो-
दश । प्रायो मूत्रविघाताद्यैर्वातकुण्ड-
लिकादय ॥ १ ॥

विशेष कर मूत्रादिके वेगोको रोकनेसे कुपित हुए दोष वातकुण्डलिकादि तेरह प्रकारके मूत्राघातोको उत्पन्न करते हैं ॥ १ ॥

वातकुण्डलिकाके लक्षण ।

रौक्ष्याद्वेगाभिघाताद्वा वायुर्वस्तौ
सवेदनः । मूत्रमाविश्य चरति वि-
गुणः कुण्डलीकृतः ॥ २ ॥ मूत्रम-
ल्पालपमथवा सरुजं संप्रवर्तते ।

वातकुण्डलिकान्तान्तु व्याधि वि-
द्यात्सुदारुणम् ॥ ३ ॥

शरीरके रूक्ष होनेसे अथवा मूत्रादिकके वेगोंको रोकनेसे द्रुपित हुई वायु कुण्डलाकार (गोलाकार) हो कर मूत्रमें मिलकर पीडाको उत्पन्न करती है, तथा मूत्रमें मिली हुई होनेसे मूत्राशयमें विचरण करती है, इससे थोड़ा थोड़ा और पीडायुक्त मूत्र उतरता है । इस अत्यंत दारुण रोगको वातकुण्डलिका कहते हैं ॥ २ ॥ ३ ॥

अष्टीलाके लक्षण ।

आध्माप्यन्वस्तिगुदं रुध्वा वायुश्च-
लोन्नताम् । कुर्यात्तीव्रात्तिमष्टीलां
मूत्रविण्मार्गरोधिनीम् ॥ ४ ॥

वायु, मूत्र तथा मलको रोककर मूत्राशय तथा गुदांमें अफारेको उत्पन्न करके चंचल, ऊंची, तीव्र पीडावाली और मूत्र तथा मलके मार्गको रोकनेवाली पिंडीकी समान गाँठको उत्पन्न करती है इसको अष्टीला कहते हैं ॥ ४ ॥

वातवस्तिके लक्षण ।

वेगं विधारयेद्यस्तु मूत्रस्याकुशलो
नरः । निरुणद्धि मुखं तस्य वस्ते-
र्वस्तिगतोऽनिलः ॥ ५ ॥ मूत्रसङ्गो
भवेत्तेन वस्तिकुक्षिनिपीडितः । वात-
वस्तिः स विज्ञेयो व्याधिः कृच्छ्रप्र-
साधनः ॥ ६ ॥

जो मूर्ख मनुष्य मूत्रके वेगको रोकता है उसके मूत्राशयमें रहनेवाली वायु वस्ति (मूत्राशय) के मुखको बंद करदेती है, तब मूत्र रुक जाता है और वस्त्याशय तथा कोखमें पीडा होती है इसको वात-वस्ति कहते हैं । यह वातवस्तिरोग कष्टसाध्य जानना ॥ ५ ॥ ६ ॥

मूत्रातीतके लक्षण ।

चिरं धारयतो मूत्रं त्वरया न प्रव-
र्त्तते । मेहमानस्य मन्दं वा मूत्राती-
तः स उच्यते ॥ ७ ॥

मूत्रके वेगको बहुत समयतक रोकनेसे मूत्र शीघ्र नहीं उतरता है मूत्रनेके समय जो धीरे २ थोड़ा २ मूत्रता है तो उसको मूत्रातीत कहते हैं ॥ ७ ॥

मूत्रजठरके लक्षण ।

मूत्रस्य वेगोऽभिहिते तदुदावर्तहेतु-
कः । अपानः कुपितो वायुरुदरं पूर-
येद् भृशम् ॥ ८ ॥ नाभेरधस्तादाध्मा-
नं जनयेत्तीव्रवेदनाम् । तन्मूत्रजठरं
विद्यादधो बस्तिनिरोधनम् ॥ ९ ॥

मूत्रके वेगको रोकनेसे जो उदावर्तरोग उत्पन्न होता है, उस उदावर्तसे कुपित हुई वायु पेटको पूरित करके नाभिके नीचे तीव्र पीडा युक्त अफारेको करता है अधोवस्तिको अवरोध करनेवाले इस रोग-को मूत्रजठर कहते हैं ॥ ८ ॥ ९ ॥

मूत्रोत्संगके लक्षण ।

बस्तौ वाप्यथवा नाले मणौ वा यस्य
देहिनः । मूत्रं प्रवृत्तं सज्जेत सरक्तं वा
प्रवाहतः ॥ १० ॥ स्रवेच्छनैरल्पमल्पं
सरुजं वाप्यनीरुजम् । विगुणानिल-
जो व्याधिः स मूत्रोत्सङ्गसंज्ञितः ॥ ११ ॥

मूत्र त्यागनेके समय वस्ति या लिंग अथवा लिंगके अग्रभागमें जब मूत्र रुक जाता है तब वह हृदयके श्वासादिके बलसे मूत्रको करता है, तब वायु मूत्राश-यको फाडकर पीडायुक्त अथवा विनापीडाके रुधिर-युक्त थोड़ा थोड़ा मूत्र धीरे धीरे उतरता है । विगुण-वातात्पन्न इस रोगको मूत्रोत्संग कहते हैं ॥ १० ॥ ११ ॥

मूत्रक्षयके लक्षण ।

रूक्षस्य क्लान्तदेहस्य बस्तिस्थौ
पित्तमारुतौ । मूत्रक्षयं सरुग्दाहं ज-
नयेत्तां तदाह्वयम् ॥ १२ ॥

रूखे और थके हुए मनुष्यके मूत्राशयमें स्थित पित्त और वायु मूत्रका क्षय करते हैं, इससे पीडा और दाह होती है इसको मूत्रक्षय कहते हैं ॥ १२ ॥

मूत्रग्रन्थिके लक्षण ।

अन्तर्बस्तिमुखे वृत्तः स्थिरोऽल्पः
सहसा भवेत् । अश्मरीतुल्यरुग्ग्रन्थिः-
मूत्रग्रन्थिः स उच्यते ॥ १३ ॥

मूत्राशयके भीतर अकस्मात् गोल आकारवाली,
स्थिर, छोटे आमलेके समान गाँठ हो और
उसमे पथरीकी समान पीडा हो उसको मूत्रग्रन्थि
कहते है ॥ १३ ॥

मूत्रशुक्रके लक्षण ।

मूत्रितस्य स्त्रियं यातो वायुना शुक्र-
मुद्धृतम् । स्थानाच्च्युतं मूत्रयतः प्राक्-
पश्चाद्वा प्रवर्तते । अस्मोदकप्रतीका-
शं मूत्रशुक्रं तदुच्यते ॥ १४ ॥

मूत्रके वेगको रोककर जो मनुष्य स्त्रीसंग करता
है, उसका वीर्य वायुसे भ्रष्ट होकर मूतनेसे पहले
अथवा मूतनेके पीछे राख मिले हुए पानीके समान
गिरता है उसको मूत्रशुक्र कहते है ॥ १४ ॥

उष्णवातके लक्षण ।

व्यायामाध्वातपैः पित्तं बस्ति प्रा-
प्याऽनिलावृतम् । बस्ति मेढ्रं गुद-
ञ्चैव प्रदहेत्स्रावयेद्धः ॥ १५ ॥ मूत्रं
हारिद्रचमथवा सरक्तं रक्तमेव च ।
कृच्छ्रात्पुनः पुनर्जेतोरुष्णवातं वदं-
ति तम् ॥ १६ ॥

व्यायाम (कसरत आदि परिश्रम), अत्यन्त मार्ग
का चलना और विशेषकर धूपमे फिरना-इन कारणों
से पित्त कुपित होकर वायुके साथ बस्तिमे प्राप्त
होकर बस्ति, लिग और गुदामे दाहको उत्पन्न करता
हो तथा हलदीके समान या किंचित् लालरंगको
अथवा रुधिरयुक्तमूत्रको वारंवार कष्टसे मूते, उसको
उष्णवातरोग कहते है ॥ १५ ॥ १६ ॥

मूत्रसादके लक्षण ।

पित्तं कफो वा द्वौ वापि संहन्येता-
निलेन चेत् । कृच्छ्रान्मूत्रं तदा पीतिं

रक्तं श्वेतं घनं सृजेत् ॥ १७ ॥ सदा-
हरोचनाशंखचूर्णवर्णश्च तद्भवेत् । शु-
ष्कं समस्तवर्णं वा मूत्रसादं वदन्ति
तम् ॥ १८ ॥

पित्त या कफ, अथवा पित्त-कफ दोनों जब
वायुसे दूषित हो जाते हैं तब पीला, लाल, सफेद और
गाढा ऐसा कष्टसे मूत्र उतरता है तथा मूतनेके समय
जलन हो और वह मूत्र भूमिमे सूख जाय और उसका
रंग गोरोचन या शंखके चूर्णकी समान हो तो
इसको मूत्रमादरोग कहते हैं ॥ १७ ॥ १८ ॥

विद्विधातके लक्षण ।

रुक्षदुर्बलयोर्वातिनोदावर्त्तं सकृद्यथा ।
मूत्रस्रोतोऽनुपद्येत विट्संसृष्टं तदा
नरः ॥ १९ ॥ विद्विगन्धं मूत्रयेत्कृच्छ्रा-
द्विद्विधातं विनिर्दिशेत् ॥ २० ॥

रुखे शरीरवाले और दुबले मनुष्यके वायुसे
प्रेरित मल जब उदावर्तको करता है तब वह मल
मूत्र मार्गकी तरफ जाता है, उस समय वह मनुष्य
मूतता है तो बड़े कष्टसे विष्टाकी गंधयुक्त मूत्र उत-
रता है इसको विद्विधात कहते हैं ॥ १९ ॥ २० ॥

बस्तिकुण्डलके लक्षण ।

द्रुताध्वलंघनायासैरभिधातात्प्रपी-
डितान् । स्वस्थानाद्बस्तिरुद्धवृत्तः
स्थूलस्तिष्ठति गर्भवत् ॥ २१ ॥ शूलस्प-
न्दनदाहातो विन्दुं विन्दुं स्रवत्यपि ।
पीडितस्तु सृजेद्वारां संस्तम्भोद्वेष्ट-
नार्त्तिमान् ॥ २२ ॥ बस्तिकुण्डल-
माहुस्तं घोरं शस्त्रविषोपमम् । पवन-
प्रबलं प्रायो दुर्निवारो ह्यबुद्धिभिः ॥
२३ ॥ तस्मिन् पित्तान्विते दाहः
शूलं मूत्रविवर्णता । श्लेष्मणा गौरवं
शोथः स्निग्धं मूत्रं घनं सितम् ॥ २४ ॥
श्लेष्मरुद्धविलो बस्तिः पित्तोदीर्णो
न सिध्यति । अविभ्रान्तविलः सा-
ध्यो न च यः कुण्डलीकृतः ॥ स्या-

द्वस्तौ कुण्डलीभूते तृणमोहः श्वास
एव च ॥ २५ ॥

बहुत शीघ्र दौडनेसे या चलनेसे, लंघन करनेसे, अधिक परिश्रम करनेसे, लकड़ी आदिकी चोटके लगनेसे, दवानेसे वसित अपने स्थानको त्यागकर ऊपर जाय, स्थूल होकर गर्भके समान ही जाती है उससे शूल, कम्प और दाहसे पीडित होकर एक एक घूँद मूत्र उतरता है । जब वसित (पेड़) को जोरसे दावे तो बड़ी वेगसे धार गिरती है, वसितमे सूजन और पेटमें पीडा होती है इसको वसितकुण्डल कहते है। यह महाभयकर व्याधि शस्त्र और विपके समान है । इसमें प्रायः वायु प्रवल होती है, यह थोडी बुद्धिवाले वैद्योंकरके दुर्निवार है । जो यह वसितकुण्डलरोग पित्ताधिक्य होय तो इसमें दाह, शूल और मूत्रका रंग बुरा होता है। और जो इसमे कफाधिक्य होय तो भारोपन, सूजन, मूत्र चिकना, गाढा और सुफेद होता है । जिस वसितका मुख कफकरके बंद होजाय और पित्त करके व्याप्त होय वह वसित असाध्य है । जिसका मुख खुला होय वह साध्य है। और कुण्डलीकृत न होय सो भी साध्य है । इस कुण्डलीमूत्रवसितके होनेसे तृषा, मोह और श्वास यह लक्षण होते है ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥

मूत्राघातकी चिकित्सा ।

स्नेहस्वेदोपपन्नस्य हितं स्नेहविरेच-
नम् । दद्यादुत्तरवास्तिश्च मूत्राघाते
सवेदने ॥ २६ ॥

पीडायुक्त मूत्राघातरोगमे स्नेहन तथा स्वेदन क्रिया करके पश्चात् स्नेहयुक्त पदार्थोंसे विरेचन देवे तथा उत्तरवसित भी देवे, यह हितकारी है ॥ २६ ॥

नलकुशकाशेक्षुशिफां कथितां प्रातः
सुशीतलां ससिताम् । पिबतः
प्रयाति नियतं मूत्रप्रह इत्युवाच
कविः ॥ २७ ॥

नरसल, कुशा, कांस और ईखकी जड इनका काथ बनाकर उसमे मिश्री डालकर शीतल करके प्रातःकाल पान करनेसे मूत्राघातरोग दूर होता है ॥ २७ ॥

गोधावत्या मूलं कथितं घृततैलगो-
रसोन्मिश्रम् । पीतं निरुद्धमचिरा-
द्दिनति मूत्रसंघातम् ॥ २८ ॥

गोधापदी(कालीमुसली) की जडका काथ बनाकर उसमें घी, तेल और गायका दूध डालकर पान करनेसे बहुत दिनोंका पुराना मूत्राघातरोग शीघ्र दूर होता है ॥ २८ ॥

पिबेच्छिलाजतुक्काथे युक्ते वीरतरा-
दिके । रसं डुरालभाया वा कषायं
वासकस्य वा ॥ २९ ॥ काथं सपत्र-
मूलस्य गोक्षुरो सफलस्य च । पि-
बेन्मधुसितायुक्तं मूत्रकृच्छ्ररुजापह-
म् ॥ ३० ॥

अथवा वीरतरादिगणका काथ बनाकर उसमे शिलाजित डालकर अथवा धमासेका रस डालकर या अडूसेका काथ डालकर पान करनेसे अथवा पत्र, पुष्प, फल और जडसहित गोखरूका काथ बनाकर उसमे शहद और मिश्री डालकर पान करनेसे मूत्रकृच्छ्ररोग दूर हाता है ॥ २९ ॥ ३० ॥

धनसारस्य चूर्णेन वस्त्रवर्तिः कृता-
म्बुना । गुण्डयित्वा ध्वजे क्षिप्तः
मूत्ररोधं जहाति सा ॥ ३१ ॥

कपूरको जलमे पीसकर कपडेपर लपेटकर बत्ती बनावे, फिर उस बत्तीको लिंगके छिद्रमे रखे तो मूत्रका अवरोध दूर होता है ॥ ३१ ॥

सदाभद्राश्मभिन्मूलं शतावय्याश्च
चित्रकम् । रोहिणीकोकिलाक्षौ च
क्रौञ्चस्थूलत्रिकण्टकम् ॥ श्लक्ष्णापिष्टः
सुरापीतो मूत्राघातप्रबाधनः ॥ ३२ ॥

कुम्भेर, पापाणभेद, शतावर, चीता, कुटकी, तालमखाना, कमलगट्टा और बडे गोखरू इनको एकत्र पीसकर मदिराके साथ पान करनेसे मूत्राघात रोग दूर होता है ॥ ३२ ॥

पिवेद्द्विहिंशिखामूलं दुग्धभुक्तं तण्डु-
लांबुना । वस्तिमुत्तरवस्तिं वा सर्वे-
षामेव दापयेत् ॥ ३३ ॥

मयूरशिखाकी जड़को चावलके जलके साथ पी-
सकर पीवे और दूधके साथ भोजन करे तो मूत्राघात
रोग दूर होता है । अथवा सर्वप्रकारके मूत्राघातरों-
गोमें वस्ति और उत्तरवस्ति देवे ॥ ३३ ॥

निदग्धिक्कायाः स्वरसं पिवेद्वा तक्र-
संयुतम् । जले कुंकुमकल्कं वा सक्षी-
द्रमुषितं निशि ॥ ३४ ॥

कटरकीके स्वरसको तक्रके साथ पान करनेसे मूत्रा-
घात रोग दूर होता है । अथवा केशरको जलमें पीस
कर उसमें गहद मिलाकर रात्रिमें रख देवे फिर प्रात-
काल होनेपर पीवे तो मूत्राघातरोग दूर होता है ॥ ३४ ॥

सतैलं पाटलाभस्म क्षारवद्वा परिसु-
तम् । सुरां सौर्वचलवतीं मूत्राघाती
पिवेत्ररः ॥ ३५ ॥

पाटलकी भस्मको क्षारके समान नितारकर तेलके
साथ पान करनेसे मूत्राघातरोग दूर होता है । अथवा
सदिरामे कालानमक डालकर पान करनेसे मूत्राघात-
रोग दूर होता है ॥ ३५ ॥

त्रिकण्टकेरण्डशतावरीभिः सिद्धं
पयो वा तृणपञ्चमूलैः ॥ ३६ ॥ गुड-
प्रगाढं सघृतं पयो वा रोगेषु कृच्छ्रा-
दिषु शस्तमेतत् ॥ ३७ ॥

गोखरू, अंडकी जड़ और शतावर इनको दूधमें
औटाकर पान करनेसे अथवा तृणपञ्चमूलको दूधमें
औटाकर पान करनेसे अथवा गुड, घी और दूध
इनको एकत्र मिलाकर पान करनेसे मूत्रकृच्छ्रादि
समस्त मूत्रसम्बन्धीरोग नष्ट होते हैं ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

शृतशीतपयोऽन्नाशी चन्दनं तण्डु-
लाम्बुना । पिवेत्सशर्करं श्रेष्ठमुष्ण-
वाने सशोणिते ॥ ३८ ॥

चन्दनको चावलके जलमें घसकर और मिश्री
मिलाकर पान करे और इसपर औटाकर शीतल किये
हुए दूधके साथ भोजन करे तो रुधिरयुक्त उष्ण वात
रोग दूर होता है ॥ ३८ ॥

शिलोद्भिदादितैल ।

शिलोद्भवेरण्डकुशास्थिरादिपुनर्नवा-
भीरुरसेषु सिद्धम् । तैलं शृतं क्षीर-
मथानुपानं कालेषु कृच्छ्रादिषु संप्र-
योज्यम् ॥ ३९ ॥

पापाणभेद, अण्डकी जड़, कुशाकी जड़ यानी दाम,
शालपर्णी, पुनर्नवा और शतावर इनके रसमें तेल-
को पकावे और इसको दूधके अनुपानसे सेवन
करे तो मूत्रकृच्छ्रादि रोग नष्ट होते हैं ॥ ३९ ॥

धान्यगोक्षुरकघृत ।

धान्यगोक्षुरुककाथकल्कसिद्धं घृतं
हितम् । मूत्राघाते मूत्रकृच्छ्रे शुक्र-
दोषे च दारुणे ॥ ४० ॥

वनियों और गोखरू इनके काथ और कल्कसे
घृतको पकावे इस घृतको सेवन करनेसे मूत्राघात,
मूत्रकृच्छ्र और दारुणवीर्यदोष शान्त होते हैं ॥ ४० ॥

भद्रावहघृत ।

अम्बुष्ठा पाटला चैव वर्षाभृद्भयमेव
च । विदारीकन्दकाशश्च कुशमोरट-
गोक्षुराः ॥ ४१ ॥ पाषाणभेदो वारा-
ही शालिमूलं शरस्तथा । भल्लातकं
शिरीषस्य मूलमेषामथाहरेत् ॥ ४२ ॥

समभागानि सर्वाणि काथयित्वा
विचक्षणः । पादशेषे कषाये तु घृत-
प्रस्थं विपाचयेत् ॥ ४३ ॥ कल्कं द-
त्त्वा च मतिमान्गिरिजं मधुकं तथा ।
नीलोत्पलं तु काकोली बीजं त्रापु-
समेव च ॥ ४४ ॥ कूष्माण्डजं तथै-
वारुसम्भवञ्च समं भवेत् । उष्णवातं
निहन्त्येतद्घृतं भद्रावहं स्मृतम् ॥ ४५ ॥

पाद, पादु, दोनों प्रकारका पुनर्नवा, विदारी-
कन्द, कांस, कुशा, ईखकी जड़, गोखुरु, पाषाणभेद,
वाराहीकंद, शालिधानोंकी जड़, रामसर, भिलोवे
और सिरसकी जड़ इन सबको समान भाग लेकर
काथ बनावे। जब पकते २ चौथाई भाग जल शेष रह
जाय तब उतारकर छान लेवे। फिर उसमें शिलाजीत,
मुँलठी, नीलकमल, काकोली, खीरेके बीज, पेठके
बीज और ककड़ीके बीज समान भाग लेकर कल्क
बना कर मिला देवे और चौथाई तोले घों डालकर
पकावे। यह भद्रावह घृत-उष्णवातको नष्ट करता
है ॥ ४१-४५ ॥

विदारीघृत ।

विदारीवृषको यूथी मातुलुङ्गी च
भूस्तृणम् । पाषाणभेदः कस्तूरी वसु-
को वशिरोऽनलः ॥ ४६ ॥ पुनर्नवा
वचा रास्ना बला चातिबला तथा ।
कशेरुविसशृङ्गाटतामलकयः स्थि-
रादयः ॥ ४७ ॥ श्रेष्ठुर्दर्ममूलश्च कु-
शः काशस्तथैव च । पलद्रयन्तु सं-
गृह्य जलद्रोणे विपाचयेत् ॥ ४८ ॥
पादशेषे रसे तस्मिन्वृतप्रस्थं विपा-
चयेत् । शतावर्यास्तथा धात्र्याः
स्वरसो घृतसम्मितः ॥ ४९ ॥ पट्ट-
पलं शर्करायाश्च कार्षिकान्यपराणि
च । यष्ट्याहं पिप्पली द्राक्षा काश्म-
र्यं सपरुषकम् ॥ ५० ॥ एला डुराल-
भा कौन्ती कुंकुमं नागकेशरम् । जी-
वनीयानि चाष्टौ च दत्त्वा च द्विशुणं
पयः ॥ ५१ ॥ एतत्सर्पिर्विपक्तव्यं श-
नैर्मृदाग्निना भिषक् । मूत्राघातेषु स-
र्वेषु विशेषात्पित्तजेषु च ॥ ५२ ॥
कासश्वासक्षतोरस्कधनुस्त्रीभारकर्षि-
ते । तृष्णाछर्दिमनःकम्पे शोणितच्छ-
र्दिते तथा ॥ ५३ ॥ रक्ते यक्ष्मण्यपस्मारे
तथोन्मादाशिरोग्रहे । योनिदोषे रजो-
दोषे शुक्रदोषे स्वरामये ॥ ५४ ॥

एतत्स्मृतिकरं वृष्यं वाजीकरणमुत्त-
मम् । पुत्रदं बलवर्णाढ्यं विशेषाद्वा-
तनाशनम् ॥ ५५ ॥ पानभोजननस्ये-
षु न क्वचित्प्रतिहन्यते । विदारीघृत-
मित्युक्तं रसायनमनुत्तमम् ॥ ५६ ॥

विदारीकन्द, अहूसा, जुही, विजौरा, भूतृण, पाषा-
णभेद, कस्तूरी, सांभरनमक, समुद्रनमक, चीता, पुन-
र्नवा, वच, राघसन, खिरटी, कंधी, कसेरु, भासीडे,
सिंघांड, मुईआमला, स्थिराद्रिगणकी औषधि, रामसर,
ईख, दाम, कुशा और कांस-ये प्रत्येक औषधि आठ
२ तोले लेकर एक द्रोण जलमें पकावे। जब पकते २
जल चौथाई भाग शेष रह जाय तब उतारकर छान लेवे
फिर इस काथमें घृत एक प्रस्थ, शतावरका रस एक
प्रस्थ, आमलोका स्वरस एक प्रस्थ, उत्तम खांड या
मिश्री २४ चौबीस तोले तथा मुँलठी, पीपल, दाख,
कुम्भेर, फालसे, इलायची, धमासा, रेणुका, केशर,
नागकेशर और जीवनीयगणकी आठो औषधि ये
प्रत्येक एक २ तोला लेकर कल्क बनाकर मिलादेवे
तथा उत्तम गौका दूध दो प्रस्थ डाले सबको मिलाके
उत्तम विधिसे मन्द २ अंग्रसे घृतको पकावे तो यह
विदारीघृत सिद्ध होता है। यह घृत-सर्वप्रकारके मूत्रा-
घात, विशेषकर पित्तजनितमूत्ररोग, खांसी, श्वास,
उर क्षत, धनुष चढानेसे कर्पित हुए, विजेष खीप्रसग
करनेसे कर्पित हुए, तृषा, व्रमन, मानसिक रोग, कंफ,
रुधिरकी वमन, क्षयरोग, रुधिरके विकार, अपस्मार,
उन्प्राद, गिरोरोग, योनिदोष, रजोदोष, शुक्रदोष
और स्वरभग आदि रोग, इन सबमें हितकारी है।
यह घृत-स्मरणशक्तिको बढानेवाला, वीर्यजनक,
उत्तम वाजीकरण, पुत्रजनक, बल और वर्णको सुंदर
करनेवाला, विशेष कर वातरोगोंको नष्ट करनेवाला
और उत्तम रसायन है। इसको पान, भोजन और
नस्यमें प्रयोग करना चाहिए इस पर कुछ परहेज
नहीं है ॥ ४६-५६ ॥

पिप्पलाखुमलमुष्णेन चारनालेन पेषये-
त् । बद्धमूत्रं निहन्त्याशु तथैव कर-
भीभवम् ॥ ५७ ॥

चूहेकी विष्टाको गरम कांजीम पीसकर अथवा ऊंटनी या हथिनोके मूत्रमे पीसकर मूत्राशयपर लेप करनेसे मूत्रका अवरोध दूर होता है ॥ ५७ ॥

स्त्रीणामतिप्रसङ्गेन शोणितं यस्य रिच्यते । मिथुनोपरमश्वास्य वृंहणीयो विधिर्हितः । ताम्रचूडवसातैलं हिनश्चोत्तरबस्तिषु ॥ ५८ ॥

जिसको अत्यन्त मैथुन करनेसे मूत्रमे रुधिर आता हो उसको मैथुनका त्याग कराकर धातुको बढ़ानेवाले उपाय करावे, पश्चात् मुरगेकी चर्बी और तेलसे उत्तरबस्ति देवे यह अत्यन्त हितकारी है ॥ ५८ ॥

स्वगुप्ताफलमृद्धीका कृष्णेशुरसितारजः ॥ ५९ ॥ समांशमर्धभागानि क्षीरक्षौद्रघृतानि च । सर्वं सम्यग्विमथ्याक्षमात्रं लिढ्वापयः पिबेत् ॥ ६० ॥ हन्ति शुक्रक्षयोत्थांश्च दोषान्वन्ध्यासुतप्रदम् ॥ ६१ ॥

कौलके बीज, दाख, काली ईखका रस और काली मिट्टी इनको समान भाग लेवे, दूध, घी और शहद ये आधे २ भाग लेवे, सबको मिलाकर इसमेसे एक तोला भर खाय और ऊपरसे दूधको पीवे तो इससे वीर्यके क्षयसे उत्पन्न हुई पीडा नष्ट होती है और वंध्यास्त्रियोंको पुत्रकी प्राप्ति होती है ॥ ५९ ॥ ॥ ६० ॥ ६१ ॥

क्षौद्रार्द्धभागघृत ।

क्षौद्रार्द्धभागः कर्तव्यो भागः स्यात्क्षीरसर्पिषोः । शर्करायाश्च चूर्णञ्च द्राक्षाचूर्णञ्च तत्समम् ॥ ६२ ॥ स्वयंगुप्ताफलञ्चैव तथा च क्षुरकस्य चापिप्पलीनां तथा चूर्णं समभागं प्रदापयेत् ॥ ६३ ॥ तद्वैकध्यं समानीय खजेनाथ विमथ्य च । तस्य पाणितलं चूर्णं लिहन्क्षीरं ततः पिबेत् ॥ ६४ ॥ एतत्सर्पिः प्रयुञ्जानः शुद्धदेहो नरः सदा । शुक्रदोषाञ्जयेत्सर्वान् ये चापि भृशदुर्जयाः ॥ ६५ ॥ जयेच्छोणितरोगांश्च वन्ध्यागर्भं ल-

भेत च । सर्पिरेतत्प्रयुञ्जानाद्योनिदोषात्प्रमुच्यते ॥ ६६ ॥


एक भाग दूध, एक भाग घी, आधा भाग शहद, एक भाग मिश्री, दाख, कौलके बीज, तालमखाना और पीपल ये एक २ भाग लेवे । इन सबको एकत्र रईसे अच्छेप्रकार मथकर इसमेसे प्रतिदिन एक तोला भर चाटे और ऊपरसे दूध पीवे । परन्तु यह प्रथम वमन, विरेचनादिसे शरीरको शुद्ध कर सेवन करना चाहिये । यह घृत-सर्वप्रकारके दारुण शुक्रदोष, सर्व प्रकारके रुधिरके विकार और सर्वप्रकारके योनिदोषोंको दूर करता है तथा वंध्यास्त्रियोंके संतानको उत्पन्न करता है ॥ ६२-६६ ॥

अश्मरीमूत्रकृच्छ्रेषु भोजनं यत्प्रकीर्तितम् । मूत्राघातेषु तत्कुर्व्यादेशकालविधानवित् ॥ ६७ ॥

अश्मरीरोगमे और मूत्रकृच्छ्ररोगमे जो आहार विहार कहा है वह सब देशकालके अनुसार मूत्राघातमे भी देना चाहिए ॥ ६७ ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां मूत्राघातनिदानचिकित्साधिकार समाप्त ॥ ३६ ॥

अथाश्मरीरोगाधिकार ।



अश्मरीरोगनिदान ।

वातापित्तकफैस्तिस्त्रयुर्थी शुक्रजापरा । प्रायः श्लेष्माश्रयाः सर्वा अश्मर्यः स्युर्यमोपमाः ॥ १ ॥

वात, पित्त और कफसे ऐसे तीन प्रकारके और चौथे वीर्यसे ऐसे पथरीरोग चार प्रकारका होता है वीर्यसे हुई पथरीको छोडकर शेष तीनों प्रकारकी पथरी प्रायः श्लेष्माश्रयसे होती है और वीर्यसे होनेवाली पथरीमे वीर्य ही कारण है । सर्वप्रकारकी पथरी विना चिकित्साके अवश्य यमरूप (मृत्यु करनेवाली) हो जाती है ॥ १ ॥

सम्प्राप्ति ।

विशोषयेद्वस्तिगतं सशुक्रं मूत्रं स-
पित्तं पवनः कफं वा । यदा तदाश्मर्यु
पजायते तु क्रमेण पित्तेष्विव रोचना
गोः ॥ २ ॥

जब कुपित हुई वायु वस्तिगत शुक्रके साथ मूत्रको
अथवा पित्तके साथ कफको सुखाती है तब क्रमक्र-
मसे पथरी उत्पन्न होती है, जिस प्रकार गौके पित्तमें
गोरोचन बढ़ता जाता है ॥ २ ॥

पूर्वरूप ।

नेकदोषाश्रयाः सर्वा अथासां पूर्वल-
क्षणम् । वस्त्याध्मानं तदासन्नदेशेषु
परतोऽतिरुक् ॥ मूत्रे वस्तसगन्धत्वं
मूत्रकृच्छ्रं ज्वरोऽरुचिः ॥ ३ ॥

सर्वप्रकारकी अश्मरी त्रिदोषसे उत्पन्न होती है ।
केवल त्रिदोष उल्लवणताके भेदसे उसके वातादिदोष
भेद जानने । पथरीके उत्पन्न होनेसे पहले वस्तिमें
अफारा, जिस स्थानमें पथरी उत्पन्न होनेको हो वह
स्थान अत्यंत पीडासे व्याप्त हो, मूत्रमें बकरेके
समान दुर्गन्ध, कृच्छ्रता, ज्वर और अरुचि होती है ॥ ३ ॥

सामान्य लक्षण ।

सामान्यलिङ्गं रुग्णाभिसेवनीवस्ति-
मूर्ध्वसु । विशीर्णधारं मूत्रं स्यात्तया
मार्गनिरोधने ॥ ४ ॥ तद्वचपायात्सु-
खं मेहेदच्छं गोमेदकोपमम् । तत्स-
ङ्क्षोभात्क्षते सास्त्रमायासाञ्चातिरु-
ग्भवेत् ॥ ५ ॥

पथरी हुई हो तो नाभिमें, सीमनमें, तथा नाभिसे
नीचेके प्रदेशमें पीडा होती है पथरीसे मूत्रके बहन
करनेवाले स्रोतोका अवरोध होनेपर मूत्रकी धार
बीचमें ही कटजाती है, किसी समय वायुसे पथरी
मूत्रके मार्गसे अन्य स्थानको चली जाती है तब
गोमेदमणिके सदृश वर्णवाला स्वच्छ मूत्र सुखसे
उतरता है पथरीके संचारसे मूत्रका मार्ग घिसकर
मूत्र रुधिरयुक्त उतरता है और बलपूर्वक मूत्र त्याग-
नेसे अत्यंत पीडा होती है ॥ ४ ॥ ५ ॥

तत्र वातादृशं चात्तो दन्तान्खादति
वेपते । गृह्णाति मेहनं नाभिं पीडय-
त्यनिशं क्वणन् ॥ ६ ॥ सानिलं मुञ्च-
ति शकृन्मुहुर्मेहाति विन्दुशः । श्या-
वारूक्षाश्मरी चास्य स्याच्चिताक-
ण्टकैरिव ॥ ७ ॥

वाताधिक्य पथरीरोगसे रोगी अत्यन्त पीडासे पी-
डित होकर दाँतोका चवाता है, कांपता है, लिंग
और नाभिको हाथसे रगडता है निरन्तर पीडाके मारे
रोता है, मूत्र आनेके समय गड्ढके साथ मलको
त्याग करता है और बारबार मूत्र टपक टपक कर
गिरता है । पथरीका रंग धूसर या नीला- होता है
और उसके ऊपर कट्टे हाने है ॥ ६ ॥ ७ ॥

वातोल्बणपथरीकी चिकित्सा ।

तस्याः पूर्वेषु रूपेषु स्नेहादिक्रम इ-
प्यते ॥ ८ ॥

पथरीके पूर्वरूप होनेपर स्नेहादिक प्रयोग करना
चाहिए ॥ ८ ॥

शुण्ठ्यादिकाथ ।

शुण्ठ्याग्निमन्थपाषाणशिशुवारुणगो-
क्षुरैः । अभयारग्वधकल्कैः काथं कृ-
त्वा विचक्षणः ॥ ९ ॥ रामठक्षारल-
वणचूर्णं दत्त्वा पिवेत्रः । अश्मरी-
मूत्रकृच्छ्रं दीपनं पाचनं परम् ॥
हन्यात्कोष्ठाश्रितं वातं कट्यूरुगुद-
मेहजम् ॥ १० ॥

सोंठ, अरणी, पाषाणभेद, सहिजना, वरुना, गोखरू,
हरड और अमलतास इन सबको समान भाग लेकर
एकत्र पीसकर काथ बनावे । फिर इस काथमें हींग,
जवाखार और सैधेनमकका चूर्ण डालकर पान करनेसे
अश्मरी, मूत्रकृच्छ्र, कोष्ठगत वात, कटिगत वात, ऊरुगत
वात, गुदाश्रितवात और लगाश्रित वायु दूर होती है।
आग्नि दीपन होती है और यह पाचन है ॥ ९ ॥ १० ॥

एलादिकाथ ।

एलोपकुल्यामधुकाश्मभेदकौन्तीश्व-
दंष्ट्रावृषक्रोरुबूकैः । शृतं पिबेदश्म-
जतुप्रगाढं शर्करं चाश्मरिमूत्रकृ-
च्छ्रे ॥ ११ ॥

इलायची, पीपल, मुलैठी, पापाणभेद, रेणुका,
गोखुरु, अड्डसा और अंडकी जड इनके काथमे
शिलाजीत डालकर पान करनेसे शर्करा, पथरी और
मूत्रकृच्छ्र दूर होता है ॥ ११ ॥

वरुणादिकाथ ।

वरुणस्य त्वचं श्रेष्ठां शुण्ठीगोक्षुरु-
संयुताम् । यवक्षारगुडं दत्त्वा काथ-
यित्वा पिबेद्विदितम् ॥ १२ ॥ अश्म-
रीं वातजां हन्याच्चिरकालानुबन्धि-
नीम् ॥ १३ ॥

वरनाकी उत्तम छाल, सोठ और गोखुरु इनका
काथ बनाकर उसमे जवाखार और गुड डालकर
पान करनेसे बहुत दिनोंकी पुरानी वातोल्बण पथरी
दूर होती है ॥ १२ ॥ १३ ॥

पाषाणभेदादिवृत ।

पाषाणभेदोवसुकोवशिरोऽश्मन्तक-
स्तथा । शतावरीश्वदंष्ट्रा च बृहती-
कण्टकारिका ॥ १४ ॥ कपोतवंकाम-
लकी काश्चनोशीरगुन्द्रकाः । वृक्षा-
दनी भल्लुकश्च वरुणः शाकजं फलम् ॥
॥ १५ ॥ यत्राः कुलित्यकोलानि क-
तकस्य फलानि च । उषकादिप्रती-
वापमेषां काथैः शृतं घृतम् ॥ भिनात्ति
वातसंभूतामश्मरीं क्षिप्रमेव तु ॥ १६ ॥

पापाणभेद, आककी जड, लाल चिरचिटा, विजय-
सार, जतावर, गोखुरु, वडी कटेरी, कटेरी, ब्राह्मी,
आमला कचनार, यस, गुन्द्रतृण, वंदा, आलू, वरना,
सागोनके फल, जौ, कुलथी, वेर और निर्मलीके फल

इनका काथ बनाकर उसमें ऊपकादिगणकी औपधि-
यां डालकर घृतको पकावे । इस घृतको सेवन करनेसे
वातोल्बणवाली पथरी दूर होती है ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥

क्षारान्यवागूः पेयाश्च कषायाश्च प-
यांसि च । भोजनानि प्रकुर्वीत वर्गै-
रश्मरिनाशनैः ॥ १७ ॥

पथरी रोगमे पथरीको नाशकरनेवाली औपधियोंके
द्वारा क्षार, यवागू, पेया, काथ, दूध और भोजन
सिद्ध करके देवे । इससे वातजनित पथरी आदि रोग
नष्ट होते है ॥ १७ ॥

वीरतरादिगण ।

वीरवृक्षोऽग्निमन्थश्च काशो वृक्षाद-
नीकुशः । मोरटेन्दीवरीसूर्यभक्ता-
गोक्षुरुदुण्टुकाः ॥ १८ ॥ वसुकोव-
शिरोदर्भशैरीयावश्मभेदकः । गु-
न्द्रोऽनलः कुरण्टश्च गणो वीरतरा-
दिकः ॥ १९ ॥ अश्मरीशर्कराकृच्छ्र
भारुतात्तिहरो गणः । बृहद्वाते वी-
रतरस्तदभावे भतः शरः ॥ २० ॥

वीरवृक्ष अरनी, कॉस, वंदा, कुशा ईखकी
जड, नीले कमल, हुलहुल, गोखुरु, टेदू, आककी
जड, लाल चिरचिटा, - डाम, कटसरैया, पाषा-
णभेद, गुन्द्रतृण, चीता और पीले फूलका पिया-
वाँसा इन सब औपधियोंके समुदायको वीरतरादि-
गण कहते है । यह वीरतरादिगण-पथरी, शर्करा,
मूत्रकृच्छ्र और वायुकी पीडाको शमन करता है ।
जो वीरतर नहीं मिले तो उसके अभावमें रामशर
लेना चाहिए ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥

पित्तोल्बणअश्मरीके लक्षण ।

पित्तेन दह्यते वस्तिः पच्यमान इवो-
ष्मवान् । भल्लातकास्थिसंस्थाना
रक्ता पीताऽसिताऽश्मरी ॥ २१ ॥

पित्तोल्बणपथरीमे-बस्तिमे दाह और अग्निसे
पकाने सरीखी पीडा होती है । पथरी भिलावेके गुठ-
लीके समान लाल, पीली और काली होती है ॥ २१ ॥

पित्तोत्थणअश्मरीकी चिकित्सा ।

कुशादिवृत ।

कुशः काशः शरो गुन्द्र उत्कटो
मोरटाश्मभित् । दर्भो विदारी वा-
राही शालिमूलं त्रिकण्टकः ॥ २२ ॥
भल्लूकः पाटला पाठा पत्तूरोत्थकुरं-
टिका ॥ २३ ॥ पुनर्नवा शिरीषश्च क-
थितैस्तु सुसाधितम् । घृतं शिलाह-
मधुकैर्बीजैरिन्दीवरस्य च ॥ २४ ॥
त्रिपुषैर्वारुकादीनां बीजैश्चावापितं
शुभम् । भिन्नातिपित्तसंभूतामश्मरीं
क्षिप्रमेव तु ॥ २५ ॥

कुशा, काँस, रामसर, गुन्द्रतृण, उत्कट (एक प्रका-
रके तृण), ईखकी जड़, पापाणभेद, डाम, विदारी-
कन्द, चाराहीकन्द, शालिधानकी जड़, गोखुरु,
भिलावे, पाढल, पाढ, गालिच, कटसरैया, पुनर्नवा
और गिरस इनके काथमे घृतको पकावे । इससे
शिलाजीत, मुलैठी, महुएके बीज, खारे और कफुडीके
बीज इनका चूर्ण मिलाकर सेवन करे तो इससे
तत्काल पित्ताश्मरी नष्ट होती है ॥ २२-२५ ॥

क्षारान्यवागूः पेयाश्च कषायाणि प-
यांसि च । भोजनादि प्रकुर्वीत वर्गे-
ऽस्मिन्पित्तनाशने ॥ २६ ॥

पित्तको नष्ट करनेवाली जो औषधिये है उनसे
क्षार, यवागू, पेया, कषाय, दूध और भोजन सिद्ध
करके पित्तोत्थण अश्मरीवाले रोगीको देवे ॥ २६ ॥

शिलाजतु शिलाहं स्यात्पटारो गुत्थ-
गुन्द्रकौ । मधुकः कृतह्रस्वत्वाद्बीजै-
र्बीजकमुच्यते ॥ २७ ॥ कुर्व्यात्क्षारा-
दिकं काथे तस्मिन्क्षयश्चवापकैः ।
वर्गत्वेन यथालाभं परिभाषा प्रवर्त्त-
ते ॥ २८ ॥

शिलाजीत, शिलारस, पेटर, मोथी तृण, गुन्द्रक-
तृण, मुलैठी और विजयसार इनके काथादिसे
जनासारादि ढालकर उपयोग करना चाहिये । वर्गके

लिए वैद्यकग्रन्थोकी परिभाषा है कि, वर्गमेकी जो
औषधि नहीं मिले तो उनसे जितनी मिले उन्हीका
उपयोग करना चाहिए ॥ २७ ॥ २८ ॥

कफोत्थणाश्मरीनिदान ।

वस्तिर्निस्तुद्यत इव श्लेष्मणा शीतलो
गुरुः । अश्मरी महती श्लक्ष्णा मधु-
वर्णा सिताऽथवा ॥ २९ ॥ एता भव-
न्ति वालानां तेषामेव च भूयसा ।
अश्रयोपचयाल्पत्वाद् ग्रहणाहरणे
सुखाः ॥ ३० ॥

कफकी उत्थणतासे पथरी हो तो नोचने सरीखी
पीड़ा होती है और पथरी गीतल, भारी, मोटी और
चिकनी, गहदके समान वर्णवाली, अथवा सफेद
होती है । यह पथरी प्रायः बालकोंके ही होती है
और बालकोंके वृद्धिका आश्रय अल्प होता है इससे
बालकोंकी पथरी निकालनेमे सुगमता होती
है ॥ २९ ॥ ३० ॥

कफोत्थण अश्मरीकी चिकित्सा ।

वरुणादिवृत ।

गणे वरुणकादौ तु गुग्गुल्वेलाहरेणु-
भिः । कुष्ठभद्राहमरिचचित्रकैः ससु-
राह्वयैः ॥ ३१ ॥ एतैः सिद्धमजासर्पि-
रूपकादिगणेन वा । भिन्नाति कफसं-
भूतामश्मरीं क्षिप्रमेव च ॥ ३२ ॥
भद्रादिस्तेन चात्रेष्टो गणः श्यामा-
दिको बुधैः ॥ ३३ ॥

वरुणादिगणकी औषधियोंके काथमे गुग्गुल, इलाय-
ची, रेणुका, कूठ, नीम, कालीमिरच, चीता और
देवदारु इनका कल्क ढालकर अथवा ऊपकादि
औषधियोंका कल्क ढालकर बकरीके घृतको पकावे ।
इस घृतको सेवन करनेसे कफाश्मरी तत्काल नष्ट
होती है । भद्रादिगणके काथमे या श्यामादिगणके
काथमे घृतको सिद्ध करके सेवन करनेसे भी कफा-
श्मरी तत्काल नष्ट होती है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

क्षारान्यवागूः पेयाश्च कषायाणि प-
यांसि च । भोजनानि प्रकुर्वीत वर्गे-
ऽस्मिन्कफनाशने ॥ ३४ ॥

वरुणादिवर्ग अथवा अन्यान्य कफाशमरी नाशक
औषधियोंके वर्गोंमें क्षार, यवागू, पेया, कषाय, दूध
तथा भोजनको सिद्ध करके कफके नाश करनेके लिये
प्रयोग करे ॥ ३४ ॥

शुक्रजाशमरीनिदानमाह ।

शुक्राशमरी तु महतां जायते शुक्र-
धारणात् । स्थानाच्च्युतममुक्तं हि मु-
ष्कयोरन्तरेऽनिलः ॥ शोषयत्युपसं-
हृत्य शुक्रं तच्छुक्रजाशमरी ॥ ३५ ॥
वस्तिरुद्धमूत्रकृच्छ्रत्वं मुष्कशयथुका-
रिणी । तस्यामुत्पन्नमात्रायां शुक्रमे-
ति विलीयते ॥ ३६ ॥ पीडिते त्वक्-
काशेऽस्मिन्नशमर्येव च शर्करा । अ-
णुशो वायुना भिन्ना सा तस्मिन्ननु-
लोमगे ॥ ३७ ॥ निरेति सह मूत्रेण
प्रतिलोमे विबध्यते । मूत्रस्रोतः प्रावि-
श्यैताः सिकताः कुर्युरुपद्रवान् ॥ ३८ ॥

शुक्राशमरी केवल अधिक उमरवाले ही मनुष्योंके
होती है, किन्तु बालकोंके नहीं होती है । यह शुक्रके
रोकनेसे होती है । जैसे मैथुन करनेके समय मैथुन-
को वीर्य स्थलित होनेसे पहले रोक देवे, तब, शुक्र
अपने स्थानसे चलायमान हुआ भीतर ही रुकजाता है
अर्थात् बाहर नहीं निकलता तब पवन उस शुक्रको
उठाकर सुखा देती है । उसको शुक्राशमरी कहते हैं
इससे रोगीके दोनो अण्डकोपोमें सूजन, वस्तिमें
पीडा और मूत्रकृच्छ्रता होती है । लिग और अण्ड-
कोपोका मध्यभाग दवानेसे यह पथरी भीतर लीन
हो जाती है । इस प्रकार जब यह लीन हो जाती है
तब तत्काल मूत्रके मार्गसे वीर्य निकलता है । शर्करा
और सिकता इन भेदोंसे अशमरी दो प्रकारकी है जो
अशमरी वायुसे भिन्न भिन्न होकर खण्ड खण्ड अर्थात्
शर्कराके समान होती है उसको शर्कराशमरी कहते
हैं । जो अशमरी बालके कणके समान हो उसको
सिकताशमरी कहते हैं । शर्करा और सिकता इन दोनोंमें

शर्कराकी अपेक्षा सिकताशमरीके रेणु सूक्ष्म होते
हैं । शर्कराशमरी रोगमें वायुकी अनुलोम गति हानि-
पर उसके रेणु मूत्रके साथ निकलते हैं । विरूप
गति होनेपर वह वद्ध हो जाती है और मूत्रस्रोतमें
आ जाय तो अनेक उपद्रवोंको करती है ॥ ३५ ॥
॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

उपद्रव ।

दौर्बल्यं सदनं काश्यं कुक्षिरोगमथा-
रुचिम् । पाण्डुत्वमुष्णवातश्च तृष्णां
हृत्पीडनं वमिम् ॥ ३९ ॥

दुर्बलता, ग्लानि, शरीरमें कृगता, कुक्षिशूल,
अरुचि, पांडुता, उष्णवात, तृषा, हृदयरोग और वमन
ये इसके उपद्रव होते हैं ॥ ३९ ॥

अरिष्ट ।

प्रमूननाभिवृषणं बद्धमूत्रं रुजातुरम् ।
अशमरी क्षपयत्याशु सिकताशर्क-
रान्विता ॥ ४० ॥

जिस अशमरीरोगीके नाभि और अंड दोनो सूज
जायँ, मूत्र रुकजाय और अत्यंत पीडा हो ऐसे मनु-
ष्यके शर्करा और सिकताशमरी शीघ्र ही प्राणोंको
नष्ट कर देती है ॥ ४० ॥

शुक्रजाशमरीकी चिकित्सा ।

शुक्राशमर्यान्तु सामान्यो विधिर-
शमरिनाशनम् । यवक्षारगुडोन्मिश्रं
रसं पुष्पफलोद्भवम् ॥ पित्रेन्मूत्रवि-
बन्धघ्नं शर्कराशमरिनाशनम् ॥ ४१ ॥

शुक्राशमरीमें अशमरीनाशक सामान्य विधि कर-
नी चाहिए अथवा पेटके रसमें जवाखार और गुड
डालकर पान करे तो मूत्रका अवरोध, शर्करा और
अशमरी नष्ट होती है ॥ ४१ ॥

तिलापामार्गकदलीपलाशयवबिल्व-
जाः । काथः पेयोऽविमूत्रेण शर्क-
राशमरिनाशनः ॥ ४२ ॥

तिल, चिरचिटा, केला, टाकके फल, जौ और
बेल इनका काथ बनाकर भेडके मूत्रके साथ पान
करनेसे शर्करा और अशमरी नष्ट होती है ॥ ४२ ॥

केवुकांकोलकतकशाकेन्दीवरजैः फ-
लैः । पीतमुष्णांबु सगुडं शर्करां
पातयत्यथः ॥ ४३ ॥

केउंआ, अंकोल, निर्मलीके फल, सागोनके फल
और कमलगट्टे इनका काथ बनाकर उसमें गुड
डालकर पान करे तो शर्करा नष्ट होती है ॥ ४३ ॥

पाषाणभिद्रोक्षुरुको रुबूकं द्वे कण्ट-
काय्यौ क्षुरकाहमूलम् । दध्ना पि-
वेत्क्षीरसुपिष्टमेतत्स्याद्देदनार्थं सि-
कताश्मरीणाम् ॥ ४४ ॥

पाषाणभेद, गाखुरु, अंडकी जड़, कटेरी, वडी-
कटेरी और तालमखाना इनको दूधमे पीसकर दहीमे
डालकर सेवन करे तो पथरी और सिकता नष्ट हो
जाती है ॥ ४४ ॥

यः पिवेद्रजनीं सम्यक्सगुडान्तुषवा-
रिणा । तस्याशुचिरूढापि यात्य-
स्तं मेदूशर्करा ॥ ४५ ॥

हलदीको गुडमें मिलाकर तुषोदकके साथ पान
करनेसे बहुत दिनोंकी पुरानी शर्कराश्मरी दूर होती
है ॥ ४५ ॥

पिवतः कुटजं दध्ना पथ्यमन्नं च खा-
दतः । निपतत्यचिरात्तस्य नियतं
मेदूशर्करा ॥ ४६ ॥

कुडैकी छालको पीसकर दहीमे मिलाकर खाव
पथ्य भोजन करे तो बहुत दिनोंकी पुरानी अश्मरी
दूर होती है ॥ ४६ ॥

त्रापुसबीजं दध्ना पीतं वा नारिके-
लजं कुसुमम् । विण्मूत्रशर्कराया
भवति सुखी कातिपर्यैदिवसैः ॥ ४७ ॥

खीरेके बीजोको दहीमें पीसकर अथवा नारियलके
फूलोंको दहीमें पीसकर सेवन करनेसे मल मूत्र और
पथरीकी बाधासे पीडित मनुष्य बहुत शीघ्र सुखी
होता है ॥ ४७ ॥

श्वदंष्ट्रावारुणीशुण्ठीकाथं क्षौद्रयुतं
पिवेत् । शर्कराश्मरिशूलघ्नं मूत्रकृ-
च्छहरं परम् ॥ ४८ ॥

गोखुरु, वरना और सोठ इनका काथ बनाकर
शहद डालकर पान करनेसे शर्करा, अश्मरी, शूल
और मूत्रकृच्छरोग नष्ट होता है ॥ ४८ ॥

कृष्माण्डकरसो हिंशुयवक्षारसमायु-
तः । वस्तौ मेदू सशूले च शर्करा-
श्मरिनाशनः ॥ ४९ ॥

पेठेके रसमे हींग और जवाखार डालकर पान
करनेसे वस्तिशूल, मेदूशूल, शर्करा और अश्मरी
नष्ट होती है ॥ ४९ ॥

पुनर्नवाऽथोरजनीश्वदंष्ट्राफलगुप्रवाला-
श्च सदर्भपुष्पाः । क्षीराम्लमद्येशुरस-
प्रपिष्टः पेयो भवेदश्मरिशर्करासु ॥ ५० ॥

पुनर्नवा, लोहेकी भस्म, हलदी, गोखुरु, कटूमर,
मूंगेकी भस्म और डाभके फूल इनको एकत्र पीस
कर दूध, कॉजी, मदिरा और ईखका रस इनके साथ
पीवे तो शर्करायुक्त अश्मरी नष्ट होती है ॥ ५० ॥

वरुणत्वक्छिलाभेदशुण्ठीगोक्षुरुकैः
कृतः । कषायः क्षारसंयुक्तः शर्करा-
श्च भिनत्यपि ॥ ५१ ॥

वरनाकी छाल, पाषाणभेद, सोठ और गोखुरु
इनके काथमे जवाखार डालकर पान करनेसे शर्क-
रासहित अश्मरी नष्ट होती है ॥ ५१ ॥

तृणपञ्चमूलादिघृत ।

पञ्चमूल्यास्तृणाख्यायास्तथा गोक्षु-
रुकस्य च । पृथग्दशपलान्भागाञ्ज-
लद्रोणे विपाचयेत् ॥ ५२ ॥ चतु-
र्भागावशिष्टेन घृतप्रस्थं विपाचयेत् ।
गुडगोक्षुरुबीजश्च कल्कं तत्र प्रदा-
पयेत् ॥ ५३ ॥ तत्सिद्धं मूत्रदोषेषु
शर्करास्वश्मरीषु च । स्नेहने भोजने
चैव प्रयोज्यं सर्पिरुत्तमम् ॥ ५४ ॥

तृणपंचमूल और गोखुरु ये प्रत्येक दश दश पल
लेकर एक द्रोण जलमे पकावे । जब पकतेर चौथाई
भाग जल शेष रह जाय तब उतारकर छान लेवे

फिर इसमें गुड और गोखुरुओका कल्क डालकर एक प्रस्थ घृतको पकावे । इस घृतको स्नेहन और भोजनमें प्रयोग करे तो इससे सर्वप्रकारके मूत्रदोष, शर्करा और अउमरी नष्ट होती है ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥

वरुणतैल ।

त्वक्पत्रफलमूलस्य वरुणात्सत्रिक-
ण्टकात् । कपायेण पचेत्तैलं बस्तिना
स्थापनेन च । शर्कराश्मरिशूलघ्नं
मूत्रकृच्छ्रनिवारणम् ॥ ५५ ॥

त्वचा, पत्र, फल और जडसहित वरुणा तथा गोखुरु लेकर चौगुने जलमें काथ बनावे । फिर इस काथके द्वारा तैलको पकावे । इस तैलकी स्थापन-वस्ति दे तो शर्करा, अउमरी, शूल और मूत्रकृच्छ्ररोग नष्ट होता है ॥ ५५ ॥

कुशादितैल ।

कुशाग्निमन्थशैरेयनलदर्भेषुगोधुराः ।
कपोतवंकावसुकवशिरेन्दीवरीश-
राः ॥ ५६ ॥ धातक्यरलुवन्दाकर्णिक-
काराश्मभेदकाः । एषां कल्ककषा-
याभ्यां सिद्धं तैलं प्रयोजयेत् ॥ ५७ ॥
पानाभ्यञ्जनयोगेन बस्तिनोत्तरब-
स्तिना । शर्कराश्मरिरोगेषु मूत्र-
कृच्छ्रे च दारुणे ॥ ५८ ॥ प्रदरे यो-
निशूले च शुक्रदोषे तथैव च । व-
न्ध्यागर्भप्रदं प्रोक्तं तैलमेतत्कुशा-
दिकम् ॥ ५९ ॥

कुशा, अरणी, कटसरैया, नल, दाभ, ईख, गोखुरु, ब्राह्मी, आककी जड, लालचिरचिटा, कमल, रामसर, धातके फूल, टेदू, वदा, कर्णिकार और पाषाणभेद इन सब औषधियोंके काथ और कल्कके द्वारा तैलको पकावे । इस तैलको पान, अभ्यञ्जन, वस्ति और उत्तरवस्ति इनमें प्रयोग करे । इससे शर्करा, अउमरी, दारुण मूत्रकृच्छ्र, प्रदर, योनिशूल और शुक्रदोष ये सब दूर होते हैं । यह तैल-वन्ध्या स्त्रियोंके गर्भको उत्पन्न करता है ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥

सामान्यचिकित्सा ।

नागरवरुणगोधुरुपाषाणमित्कपोत-
वंकजः काथः । गुडयावशूकविमि-
श्रः पीतो हन्त्यश्मरीमुग्राम् ॥ ६० ॥

साठ, वरुणा, गोखुरु, पाषाणभेद और ब्राह्मी इनका काथ बनाकर गुड और जवाखार डालकर सेवन करनेसे घोर अउमरीरोग दूर होता है ॥ ६० ॥

विकण्टकस्य बीजानां चूर्णं माक्षि-
कसंयुतम् । अविक्षीरेण सप्ताहं पेय-
मश्मरिनाशनम् ॥ ६१ ॥

गोखरुओके बीजोंका चूर्ण करके शहद मिलाकर चकरी या भेदके दूधके साथ सात दिनतक सेवन करनेसे पथरीरोग दूर होता है ॥ ६१ ॥

पिवेद्वरुणजं मूलं काथं तत्कल्कसंयुत-
म् ।

वरुणकी जडके काथमें वरुणकी जडका चूर्ण डालकर पान करनेसे पथरीरोग दूर होता है ॥

काथश्च शिशुमूलोत्थः कटृष्णोऽश्म-
रिनाशनः ॥ ६२ ॥

सहिजनेकी जडका काथ बनाकर मद्दोष्ण पान करनेसे अउमरीरोग दूर होता है ॥ ६२ ॥

शृङ्गवेरयवक्षारपथ्याकालीयकान्वि-
तः । दधिमण्डो भिनच्युग्रामश्मरी-
माशु पानतः ॥ ६३ ॥

अदरख, जवाखार, हरड और पीतचन्धन इनका कल्क बनाकर दहीके माडके साथ सेवन करनेसे पथरी रोग जीत्र दूर होता है ॥ ६३ ॥

पाषाणभेद्वरुणगोधुरकपोतवंकजः
काथः । गिरिजतुगुडप्रगाढः कर्क-
टिकात्रपुसबीजयुतः ॥ ६४ ॥ पेयो-
ऽश्मरीमवश्यं दुर्भेदामपि भिनत्ति
योगवरः । शिखरिणमिव शतकोटिः
शतमन्योर्हस्तनिर्मुक्तः ॥ ६५ ॥

पाषाणभेद, वरना, गोखुरु और ब्राह्मी इनका काथ बनाकर उसमें गिलाजीत, गुड, ककडीके बीजोंका चूर्ण और खीरेके बीजोंका चूर्ण डालकर पान करनेसे अत्यंत कठिन पथरी भी भिद जाती है। जिस प्रकार इन्द्रके हाथसे छूटा हुआ वज्र अनेक पर्वतोंको भेद डालता है ॥ ६४ ॥ ६५ ॥

श्रीपर्णीफलबीजं मथितेन यः पुमानद्यात् । शाकमशित्वाऽवश्यं तद्धन्ति रोगाश्मरीपीडाम् ॥ ६६ ॥

अरणीके बीजोंको तक्रके साथ सेवन करनेसे अथवा अरणीके पत्तोंका ज्ञाक भक्षण करनेसे अश्मरी रोग अवश्य नष्ट हो जाता है ॥ ६६ ॥

श्वदंष्ट्रैरण्डबीजानि नागरं वरुणत्वचः । एतत्काथवरं प्रातः पिबेदश्मरिनाशनम् ॥ ६७ ॥

गोखुरु, अंडके बीज, सोठ और वरनाकी छाल इनका काथ बनाकर प्रातःकाल पान करनेसे अश्मरी रोग दूर होता है ॥ ६७ ॥

रक्तोद्भेव नूत्पलनालतालकाशेक्षुबालीक्षुकुशोदकानि । पिबेत्सिताक्षौद्रयुतानि खादेद्विदारिमिक्षुत्रपुसानि चैव ॥ ६८ ॥

कमलकी नाल, ताडका फल, कास, ईख, छोटी ईख और कुआ इनको जलमें पीस कर गंध मिला कर सेवन करे और ऊपरसे विदारीकद, ईख और खीरेको भक्षण करे तो पथरीजनित मूत्रमें रुधिरका गिरना बंद होता है ॥ ६८ ॥

वरुणादिचूर्ण ।

पलान्यष्टौ तु कुर्वीत क्षाराणां वरुणत्वचः । तदद्धं यावश्कात्तु ततोऽप्यर्धं गुडाद्वृतम् ॥ ६९ ॥ एकीकृत्य विमृद्यैतत्त्वादेत्कर्षप्रमाणतः । घर्मावुना सहावश्यं कृच्छ्राश्मरिविनाशनम् ॥ ७० ॥

वरनेकी छालका खार ३२ तोले, जवाखार १६ तोले और गुड तथा घी आठ ८ तोले, इन सबको एकत्र मिलालेवे और प्रतिदिन उसमेंसे एक तोला प्रमाण खाय तथा इसपर गरम जल पीवे तो यह चूर्ण मूत्रकृच्छ्र और अश्मरीको नष्ट करता है ॥ ६९ ॥ ७० ॥

वरुणकभस्मपरिस्रुतसलिलं तच्चूर्णं यावश्कयुतम् । कथनीयं तत्तावद्यावच्चूर्णत्वमायाति ॥ ७१ ॥ तद्भुडयुक्तं हन्यात्तदुदारामश्मरीं घो-राम् । वह्निसदनं सुकष्टमश्ममयीम-श्मरीं चाशु ॥ ७२ ॥

वरनेके छालकी भस्म करके जलमें डाल देवे और फिर वस्त्रमें डालकर नितारे, पश्चात् उस नितारे हुए पानीमें जवाखार मिला देवे। फिर इसको पकावे। जबतक यह पकते २ चूर्णके समान न हो जाय तबतक इसको पकावे। फिर इसमें गुड मिलाकर सेवन करनेसे भयंकर पथरी, मन्दाग्नि और अनेक प्रकारके उदररोग तथा पत्थरके समान कठिन पथरी भी नष्ट होती है ॥ ७१ ॥ ७२ ॥

वरुणकगुड ।

नो जग्धं कृभिभिर्घनं सुतरुणं स्निग्धं शुचिस्थानजं घस्त्रे पुण्यनिरीक्षिते वरुणकं छित्त्वा तुलां ग्राहयेत् ॥ संगृह्याप्सु चतुर्गुणासु विपचैत्पादावशेषं जलं तत्तुल्येन गुडेन वै दृढतरे भाण्डे पचेत्तत्पुनः ॥ ७३ ॥ ज्ञात्वैवं घनतां गुडे परिणते प्रत्येकमेषां पलं शुण्ठचोर्वारुकबीजगोक्षुरुकणापाषाणभिच्छीतलाः ॥ कूष्माण्डत्रपुसाक्षबीजकुनटीवास्तूकसौभाञ्जनद्राक्षैलागिरिजाभयाकृमिहतां चूर्णीकृतानां क्षिपेत् ॥ ७४ ॥ पथ्याशी प्रतिवासरं गुडमसुं योग्यप्रमाणं नरः । खादेत्तस्य समस्तदोषजनिताश्मर्यः पतन्ति द्रुतम् ॥ ७५ ॥

जो कीडोंका खाया हुआ हो तथा तरुण, स्निग्ध और पवित्र स्थानमें उत्पन्न हुआ ऐसे वरनेके वृक्षको शुभदिनमें, शुभ नक्षत्रमें काटकर उसमेंसे चार सौ तोले ग्रहण करे और उसको चौगुने पानीमें पकावे । जब वह पककर चौथाई भाग बाकी रह जाय तब उसको उतारकर छान लेवे । फिर इस छने हुए काथमें बराबरका गुड डालकर एक उत्तम दृढ पात्रमें पकावे, जब गुड पककर गाढा होजाय तब उसमें सोठ, कन्दकीके बीज, गोखुरु, पीपल, पापाणभेद, पद्मास, पेटेके बीज, खीरेके बीज, बहेडेके बीज, धनियों, बधुआ, सहिजना, दास, इलायची, गिला-जीत, हरड और वायविडंग प्रत्येक औषधिका चूर्ण चार २ तोले डालकर खूब अच्छे प्रकारसे ऋछीसे चलादेवे । इस वरुणक गुडको पथ्य भोजन करके बलानुसार भक्षण करे तो इससे समस्त दोषोत्पन्न पथरीरोग दूर होता है ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥

कुलित्थाद्यवृत ।

कुलित्थासिन्धुत्थविडङ्गसारं सशर्करं शीतलियावशूकम् । बीजानि कूष्माण्डकगोधुराभ्यां घृतं पचेत्तद्वरुणस्य तोयै ॥ ७६ ॥ दुःसाध्यसर्वाश्मरिभूत्रकृच्छ्रं मूत्राभिघातश्च समूत्रबन्धम् । एतानि सर्वाणि निहन्ति शीघ्रं प्ररूढवृक्षानिच वज्रपातः ॥ ७७ ॥

कुलथी, सैधानमक, वायविडंगके चावल, दवाड, जवाखार, पेटेके बीज और गोखुरुके बीज इनके कल्कके द्वारा वरनेके काथमें घृतको पकावे। यह घृत-सर्वप्रकारकी दुःसाध्य पथरी, मूत्रकृच्छ्र और मूत्राघात और मूत्रावरोध इन सब रोगोंको इस प्रकार नष्ट करता है, जिस प्रकार वज्र दृढ जडवाले वृक्षको शीघ्र नष्ट कर देता है ॥ ७६ ॥ ७७ ॥

शरादिपंचमूलघृत ।

शरादिपञ्चमूल्या वा कषायेण पचेद्घृतम् । प्रस्थं गोक्षुरुकल्केन सिद्धमद्यात्सशर्करम् । अश्मरीमूत्रकृच्छ्रं रेतोमार्गरुजापहम् ॥ ७८ ॥

रामसर और तृणपञ्चमूलके काथमें-एक प्रस्थ गोखुरुका कल्क डालकर घृतको पकावे । फिर इसमें

मिश्री या उत्तम खँड मिलाकर संवन करे तो अश्मरी, मूत्रकृच्छ्र और वरिचके मार्गकी पीडा दूर होती है ॥ ७८ ॥

वरुणघृत ।

वरुणस्य तुलां क्षुण्णां जलद्रोणे विपाचयेत् । पाददोषं परिस्त्राव्य घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ७९ ॥ वरुणं कदलीविल्वं तृणजं पञ्चमूलकम् । अमृता चाश्मभेदश्च बीजश्च त्रपुसस्य च ॥ ८० ॥ शतपर्वातिलक्षारं पलाशक्षार एव च । यूथिकायाश्च मूलानि कार्षिकानि समावपेत् ॥ ८१ ॥ अस्य मात्रां पिबेज्जन्तुर्देशकालाद्यपेक्षया । जीर्णं चास्मिन्पिबेत्पूर्वं गुडं जीर्णन्तु मस्तुना ॥ ८२ ॥ अश्मरीं शर्कराश्चैव मूत्रकृच्छ्रं नाशयेत् ॥ ८३ ॥

वरनाकी उत्तम छाल १०० सौ पल लेकर कुछ कूटकर एक द्रोण जलमें पकावे । जब पकते २ जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेवे । फिर इस काथमें वरनेकी छाल, केला, बेल, तृणपंचमूल, गिलोय, पापाणभेद, खीरेके बीज, ईखकी जड, तिलोका खार, ढाकका खार और जुहीकी जड इन प्रत्येकका कल्क एक २ तोले डालकर एक प्रस्थ घृतको विधिपूर्वक मन्द २ अग्निसे पकावे । इस घृतको देश और कालका विचार कर यथामात्रानुसार पान करे। इसके जीर्ण होनेसे पहले पुराने गुडको दहीके तोडके साथ पान करे । यह घृत-अश्मरी, मूत्रकृच्छ्र और शर्कराको नष्ट करता है ॥ ७९-८३ ॥

वीरतरादि तैल ।

सैन्धवाद्यन्तु यत्तैलमृषिभिः परिकीर्तितम् । तत्तैलं द्विगुणं क्षीरं पचेद्दीरतरादिना ॥ ८४ ॥ काथेन पूर्वकल्केन साधितन्तु भिषग्वरैः । एतत्तैलवरं श्रेष्ठमश्मरीणां विनाशनम् ॥ ८५ ॥ मूत्राघाते मूत्रकृच्छ्रे पिबिते

मथिते तथा । भग्ने श्रमाभिपन्ने च सर्वथैव प्रशस्यते ॥ ८६ ॥

ऋषियोने जो सैधवाद्य तैल कहा है उस तेलको दुगुने दूधमे वीरतरादिगणके काथ और कल्कके द्वारा पकावे । यह उत्तम तेल-अश्मरीको नष्ट करता है । तथा मूत्राघात, मूत्रकृच्छ्र, एवं पिचे हुए मथित, मसले हुए, हड्डी आदि टूटे हुए और अत्यन्त परिश्रम करनेसे थके हुए अंगोमें मालिश करनेसे भी अत्यन्त हिन करता है ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥

द्वितीयवीरतराद्यतैल ।

वीरवृक्षाशमभेदाग्निमन्थस्योनाकपाटलाः । वृक्षादनीसहैरण्डभल्लुकोशीरपद्मकम् ॥ ८७ ॥ कुशकाशशरेक्षुणामास्फोताकोकिलाक्षयोः । शतावरीश्वदंष्ट्रा च सौत्कटाद्वयवज्जुलाः ॥ ८८ ॥ कपोतवङ्गाश्रीपर्णी काशश्मरीमूलसंयुता । एतैः कषायैः कल्कैश्च तैलं धीरो विपाचयेत् ॥ ८९ ॥ वातपित्तविकारेषु वस्ति दद्याद्विचक्षणः । शर्कराश्मरिशूलघ्नं मूत्रकृच्छ्रविनाशनम् ॥ ९० ॥

वीरवृक्ष, पापाणभेद, अरणी, ज्योनाक, पाटल, वंदा, पियावसा, अडकी जड, भिलावे, खस, पद्माख, कुशा, कौस, रामसर, ईल, अपराजिता, तालमखाना, शतावर, गोखुरु, दोनो जातिका ऊंटकटीरा, तेजवल, ब्राह्मी, अरणी और कुम्भेर इन सबके काथ और इन्हींके कल्कके द्वारा तेलको पकावे । फिर इस तेलकी वात और पित्तके विकारोमें वस्ति देवे । इस तेलसे शर्करा, अश्मरी, शूल और मूत्रकृच्छ्र नष्ट होते हैं ॥ ८७-९० ॥

पुनर्नवाद्यतैल ।

पुनर्नवामृताभीरुसक्षारलवणत्रयैः । शटीकुष्ठवचामुस्तरास्त्राकटफलपौष्करैः ॥ ९१ ॥ यवानीहपुषाहिंशुशताह्वासाजमोदकैः । विडङ्गातिविषायष्टीपञ्चकोलकसंयुतैः ॥ ९२ ॥ एतैरक्षसमैः कल्कैस्तैलप्रस्थं विपाचयेत् ।

गोभूत्रं द्विगुणं देयं काञ्जिकं तद्वदेव तु ॥ ९३ ॥ पुनर्नवाद्यमित्येतत्तैलं पानेन वस्तिना । शर्कराश्मरिशूलघ्नं मूत्रकृच्छ्रप्रमोचनम् ॥ ९४ ॥ कट्यूरुवस्तिमैट्स्थं कुक्षिशूलविनाशनम् । कफवातामशूलघ्नमन्त्रवृद्धेश्वनाशनम् ॥ ९५ ॥

पुनर्नवा, गिलोय, शतावर, जवाखार, तीनो लवण, कचूर, कूठ, वच, नागरमोथा, रायसन, कायफल, पोहकरमूल, अजवायन, हाऊवर, हींग, सौफ, अजमोद, वायविडंग, अतीस, मुलैठी और पंचकोल ये प्रत्येक औषधि एक एक तोला लेकर कल्क बनावे । इस कल्कके द्वारा एक प्रस्थ तेलको दुगुने गोभूत्र और दुगुनी कांजीमें पकावे तो यह पुनर्नवाद्यतैल सिद्ध होता है । इस तेलको पान करनेसे अथवा वस्तिकर्ममें प्रयोग करनेसे शर्करा, अश्मरी, शूल, मूत्रकृच्छ्र, कटिगूल, ऊरुशूल, वस्तिगूल, लिगगूल, कुक्षिगूल, कफ, वात, आमगूल और अन्त्रवृद्धिरोग नष्ट होता है ॥ ९१-९५ ॥

ब्रध्नाधिकारनिर्दिष्टं सैन्धवाद्यमिहेप्यते । सर्वथैवोपयोज्यस्तु गणो वीरतरादिकः ॥ ९६ ॥ घृतैः क्षीरैः कषायैश्च क्षारैश्चात्तरवास्तिभिः । अश्मरीं चाप्यशाभ्यन्तीं प्रत्याख्याय समुद्धरेत् ॥ ९७ ॥


ब्रध्नाधिकारमें जो सैन्धवादि तेल कहा है, वह इस शर्करा और सिकतापथरीरोगमें भी प्रयोग करना चाहिए । वीरतरादिगणकी औषधियोंके द्वारा सिद्ध किये हुए तेल, घृत, दूध, काथ और क्षारादिकी उत्तरवस्ति देनेसे भी जो पथरी बलवान् हो और किसी औषधिसे शांत न हो तो अन्न आदिके द्वारा पथरीको लिगमेसे निकालना चाहिए ॥ ९६ ॥ ९७ ॥

इति श्रीविंगसेने भापाटीकायां

अश्मरीरोगाधिकार

समाप्त ॥ ३७ ॥

अथ प्रमेहरोगाधिकार ।



प्रमेहका निदान ।

आस्यासुखं स्वप्नसुखं दधीनि ग्राम्यो-
दकानूपरसाः पयांसि । नवान्नपानं
गुडवैकृतञ्च प्रमेहहेतुः कफकृच्च सर्व-
म् ॥ १ ॥

आरामसे बैठे रहनेसे, अत्यन्त निद्रासे, दही,
ग्राम्यजीवोका मांस, जलचरजीवोका मांसरस, अनूप-
देशके जीवोका मांसरस, दूध, नवीन अन्न, नवीन
जल, गुडके बने पदार्थ, गुड और सम्पूर्ण कफकारक
पदार्थ ये सब प्रमेह होनेके कारण है-अर्थात् इनको
सेवन करनेसे प्रमेहरोग उत्पन्न होता है ॥ १ ॥

प्रमेहकी सम्प्राप्ति ।

भेदश्च मांसश्च शरीरजं च क्लेदं कफो
वस्तिगतं प्रदूष्य । करोति मेहान्स-
मुदीर्णमुष्णैस्तानेव पित्तं परिदूष्य
चापि ॥ क्षीणेषु दोषेष्ववकृष्य धातू-
न्सदूष्य मेहान् कुरुतेऽनिलश्च ॥ २ ॥

कफ, पित्त और वातोद्भव प्रमेहोकी क्रमसे सम्प्रा-
प्ति कहते हे । वस्तिगत कफ, भेद, मांस और क्लेदको
दूषित करके कफप्रमेहोको उत्पन्न करता है । उमी
प्रकार अधिक गरम पदार्थोको सेवन करनेसे वढा
हुआ पित्त भेद मांसादिकको दूषित करके पित्तप्रमे-
होको उत्पन्न करता है । एवं वायु कफ पित्तकी क्षी-
णतासे वसा, मज्जादि धातुओको खींचकर वस्तिके
मुखपर लाकर वातजप्रमेहोको उत्पन्न करता है ॥२॥

साध्याः कफोत्था दश पित्तजाः षड्
याप्या न साध्याः पवनाञ्चतुष्काः ।
समक्रियत्वाद्धिपमाक्रियत्वान्महात्य-
यत्वाञ्च यथाक्रमन्ते ॥ ३ ॥

कफोत्पन्न दश प्रमेह साध्य है । कारण यह है
कि, इनकी औषधक्रिया समान है । छः प्रकारके
पित्तप्रमेह याप्य है कारण यह कि, इनमे औषधि-
क्रिया विषम है । और चार प्रकारके वातप्रमेह
असाध्य हे कारण, वायु मज्जादि गम्भीर धातुओको

अपकर्षण करनेसे शीघ्र अत्यन्त पीडा करता है तथा
इनकी विषम क्रिया है ॥ ३ ॥

दोषदूष्योका वर्णन ।

कफः सपित्तः पवनश्च दोषा भेदोऽस-
शुक्रांशुवसालसीकाः । मज्जारसोऽजः
पिशितश्च दूष्याः प्रमेहिणां विंशति-
रेव मेहाः ॥ ४ ॥

कफ, पित्त और वायु ये दोष तथा भेद, रक्त,
शुक्र, जल, स्नेह, लसीका, मज्जा, रस, ओज और
मांस ये दूष्य है अर्थात् कफपित्तादि दोषोंसे ये भेद
रक्तादि दूषित होते है, इस कारण ये दूष्य कहे जाते
है । इन दोष और दूष्योसे बीस प्रकारके प्रमेह उत्पन्न
होते है ॥ ४ ॥

पूर्वरूप ।

दन्तादीनां मलाढ्यत्वं प्रायूप पाणि-
पादयोः । दाहश्चिक्रणता देहे तृट्-
स्वाद्वास्यश्च जायते ॥ ५ ॥

जब प्रमेह उत्पन्न होनेको होता है तब उससे
पहले दाँत आदिमें मूल इकट्ठा होता है, हाथ पाँवोंमें
दाह, शरीरमें चिकनापन, तृषा और मुखमें मीठापन
होता है ॥ ५ ॥

सामान्य लक्षण ।

सामान्यं लक्षणं तेषां प्रभूताऽऽविल-
मूत्रता ॥ ६ ॥

मूत्रकी अधिकता और गदलापन होना यह प्रमेहका
सामान्य लक्षण है ॥ ६ ॥

प्रमेहके कारण ।

दोषदूष्याविशेषेऽपि तत्संयोगविशे-
षतः । मूत्रवर्णादिभेदेन भेदो भेदेषु
कल्प्यते ॥ ७ ॥

दोष और दूष्य इनकी विशेषता न होने पर भी
संयोगकी विशेषतासे मूत्रके वर्ण आदिमे जो अन्तर
होता है उसमे प्रमेहोके भेदोंकी कल्पना करी है ॥७॥

दशकफप्रमेहोंके लक्षण ।

स्वच्छं बहुसितं शीतं निर्गन्धमुदको-
पमम् । मेहत्युदकमेहेन किञ्चिच्चा-
विलपिच्छिलम् ॥ ८ ॥

जिसमे स्वच्छ, बहुत सफेद, शीतल, गंधरहित, जल-
के समान, किंचित् गदला और चिकना मूत्र उतरे
उसको उदकमेह कहते हैं ॥ ८ ॥

इक्षो रसमिवात्यर्थं मधुरं चक्षुमेहतः ।
सान्द्रीभवेत्पर्युषितं सान्द्रमेहेन मे-
हति ॥ ९ ॥

ईसके रसके समान रंगवाला और स्वादमे मीठा
मूत्र उतरे उसको इक्षुमेह कहते हैं । मूत्रको पात्रमे
करके रात्रिके समय रखेंव जो वह दूसरे दिन गाढा
होजाय तो उसको सान्द्रमेह जानना चाहिये ॥ ९ ॥

सुरामेही सुरातुल्यमुपर्यच्छमधो घ-
नम् ॥ १० ॥

जिसका मूत्र सुराके समान ऊपर तो स्वच्छ और
नीचे गाढा हो तो उसको सुरामेह कहते हैं ॥ १० ॥

संहृष्टरोमा पिष्टेन पिष्टवद्बहुलं सि-
तम् । शुक्राभं शुक्रमिश्रं वा शुक्रमेही
प्रमेहति । मूत्राणून्सिकतामेही सि-
कतारूपिणो मलान् ॥ ११ ॥ शी-
तमेही सुबहुशो मधुरं भृशशी-
तलम् । शनैः शनैः शनैर्मेही मन्दं
मन्दं प्रमेहति । लालातन्तुयुतं मूत्रं
लालामेहेन पिच्छिलम् ॥ १२ ॥

जिसमें पिसेहुए चावलोके पानीके समान सफेद
और बहुत मूत्र उतरे तथा मूतनेके समय रोमांच हो
आवे उसको पिष्टप्रमेह जानना । जो शुक्रके समान
अथवा शुक्रमिला मूत्रे उसको शुक्रमेह कहते हैं । जिस
प्रमेहमे छोटे २ बालू रेतके समान कण मूत्रे उसको
सिकतामेह कहते हैं । वारंवार मधुर और अत्यन्त
शीतल मूत्र उतरे उसको शीतमेह कहते हैं । धीरे २
थोडा २ मूत्रे उसको शनैर्मेह कहते हैं । लारके समान

तंतुयुक्त और पिच्छिल मूत्र उतरे उसको लालामेह
कहते हैं ॥ ११ ॥ १२ ॥

पित्तके छः प्रमेहोंके लक्षण ।

गन्धवर्णरसरूपशैः क्षारेण क्षारतो-
यवत् ॥ १३ ॥ नीलमेहेन नीलाभं
कालमेही मषीनिभम् । हारिद्रमेही
कटुकं हरिद्रासन्निभं दहत् ॥ १४ ॥
विस्त्रं माञ्जिष्टमेहेन मञ्जिष्ठासलिलो-
पमम् । विस्त्रमुष्णं सलवणं रक्ताभं
रक्तमेहिनः ॥ १५ ॥

खारी जलके समान गंध, वर्ण, रस और स्पर्श
हो उसको क्षारमेह कहते हैं । जिसमे नीला मूत्र उतरे
उसको नीलमेह कहते हैं । स्याहीके समान काला
मूत्र उतरे उसको कालमेह कहते हैं । कटु रसवाला,
हलदीके समान रंगवाला और दाहयुक्त मूत्र उतरे
उसको हारिद्रमेह कहते हैं । दुर्गन्धित और मजीठके
काथके समान मूत्र उतरे उसको मांजिष्टमेह कहते
हैं । दुर्गन्धयुक्त, गरम, नमकीन और रुधिरके समान
लाल मूत्र उतरे उसको रक्तमेह कहते हैं ॥ १३ ॥
१४ ॥ १५ ॥

वातके ४ प्रमेहोंके लक्षण ।

वसामेही वसामिश्रं वसाभं मूत्रये-
न्मुहुः । मज्जाभं मज्जामिश्रं वा मज्जा-
मेही मुहुर्मुहुः ॥ कषायं मधुरं रूक्षं
क्षौद्रमेहं वदेद्बुधः ॥ १६ ॥ हस्ती म-
त्त इवाजस्रं मूत्रं वेगविवर्जितम् ।
सलसीकं विवद्भ्रश्च हस्तिमेही प्रमे-
हति ॥ १७ ॥

चर्वायुक्त और चर्वाके समान वारंवार मूत्रे
उसको वसामेह कहते हैं । मज्जाके समान अथवा
मज्जामिश्रित मूत्र वारंवार उतरे उसको मज्जामेह कहते
हैं । कषैला, मधुर, रूखा और गहदके समान मूत्रे
उसको क्षौद्रमेह कहते हैं । मत्त हाथीके समान वारं-
वार वेगरहित तारसंयुक्त और रुक रुक कर मूत्रे
उसको हस्तिमेह कहते हैं ॥ १६ ॥ १७ ॥

प्रमेहके उपद्रव ।

कफप्रमेहके उपद्रव ।

अविपाकोऽरुचिश्छर्दिस्तन्द्रा कासः
सपीनसः। उपद्रवाः प्रजायन्ते मेहानां
कफजन्मनाम् ॥ १८ ॥

अन्नका अच्छे प्रकारसे परिपाक नहीं होना, अरुचि,
वमन, तन्द्रा, खोंसी और पीनस ये सब उपद्रव कफ-
जप्रमेहमे होते हैं ॥ १८ ॥

पित्तजप्रमेहके उपद्रव ।

वस्तिमेहनयोस्तोदो मुष्कावदरणंज्व-
रः । दाहत्पुष्णाम्लिकामूर्च्छा विड्-
भेदः पित्तजन्मनाम् ॥ १९ ॥

वस्ति और लिंगमे तोड़नेसरीखी पीडा हो, दोनो
अंडकोपोंमे फाड़नेकीसी पीडा हो तथा दाह, तृषा,
खट्टी डकारोंका आना, मूर्च्छा और मलभेद ये सब
उपद्रव पित्तजप्रमेहके जानने ॥ १९ ॥

वातजप्रमेहके उपद्रव ।

वातजानामुदावर्तकम्पहृद्ब्रह्मलोलता ।
शूलमुन्निद्रताशोषः श्वासः कासश्च
जायते ॥ २० ॥

उदावर्त, कम्प, हृदयका रुकना, चपलता, शूल,
निद्राका नहीं आना, शोष, श्वास और खोंसी ये
वातजप्रमेहके उपद्रव जानने ॥ २० ॥

प्रमेहका अरिष्ट ।

यथोक्तोपद्रवारिष्टमतिप्रसृतमेव च ।
पिडिकापीडितं गाढं प्रमेहो हन्ति
मानवम् ॥ २१ ॥

जिसमे उपरोक्त अविपाकादि सब उपद्रव हो और
अत्यंत शुक्र स्रवित होता हो तथा पिडिकाओसे
पीडित हो ऐसा प्रमेहरोगी निश्चय मरणको प्राप्त
होता है ॥ २१ ॥

असाध्य लक्षण ।

मूर्च्छालीद्विज्वरश्वासकासर्वासर्पगौर-
वैः । उपद्रवैरुपेतो यः प्रमेही दुष्प्रति-
क्रियाः ॥ २२ ॥

जो प्रमेही मनुष्य मूर्च्छा, वमन, ज्वर, श्वास, खोंसी,
विसर्प और गुग्गुता इन उपद्रवोंसे युक्त हो तो असा-
ध्य जानना ॥ २२ ॥

स्त्रियोंके प्रमेह न होनेका कारण ।
रजःप्रसेकान्नारीणां मासि मासि वि-
शुद्धयति । कृत्स्नं शरीरं दोषांश्च न-
प्रमेहन्त्यतः स्त्रियः ॥ २३ ॥

स्त्रियोंके महोनेके महोने रजोधर्म होता रहता है
इस कारण उससे शरीरके सब दोष स्वच्छ रहते
हैं अतएव स्त्रियोंके प्रमेह नहीं होता ॥ २३ ॥

असाध्य लक्षण ।

जातः प्रमेही मधुमेहिनो वा न सा-
ध्यरोगः स हि बीजदोषात् । ये चा-
पि केचित्कुलजा विकारा भवन्ति
तांश्च प्रवदन्त्यसाध्यान् ॥ २४ ॥

मधुमेहवाले मनुष्यसे उत्पन्न हुआ जो प्रमेहवान्
मनुष्य उसका प्रमेह बीजके दोषके कारण साध्य नहीं
है। जो जिसके कुलमे परंपरासे विकार चले आते हैं
वह भी साध्य नहीं है ॥ २४ ॥

सर्व प्रमेहोंकी उपेक्षा करनेसे
मधुमेह होता है ।

सर्व एव प्रमेहास्तु कालेनाप्रतिका-
रिणः । मधुमेहत्वमायान्ति तदा-
ऽसाध्या भवन्ति हि ॥ २५ ॥

चिकित्सा न करनेसे सर्वप्रकारके प्रमेह काला-
न्तरमे मधुमेहको प्राप्त हो जाते हैं और तब असाध्य
होते हैं ॥ २५ ॥

मधुमेहे मधुसमं जायते स किल
द्विधा । क्रुद्धे धातुक्षयाद्वायौ दोषा-
वृतपथेऽथवा ॥ २६ ॥ आवृत्तो दोष-
लिङ्गानि सोऽनिमित्तं प्रदर्शयन् ।
क्षणात्क्षीणः क्षणात्पूर्णो भजते कृ-
च्छ्रसाध्यताम् ॥ २७ ॥

मधुमेहमें मूत्र शहदके समान होता है । यह मधु-
मेह दो प्रकारका होता है सो इस प्रकार कि, एक तो
धातुओके क्षयसे वायुका प्रकोप होनेपर होता है,

अथवा दोपोसे वायुका मार्ग रुक जानेसे होता है, दोपोसे वायुका मार्ग रुक जानेपर वह वायु अकस्मात् दोपोके चिह्नको दिखाता है और उसी प्रकार क्षणमात्रमे मूत्राग्यको खाली कर डालता है तथा क्षणमात्रमे पूर्ण कर देता है इसीसे प्रमेह कष्टसाध्य हो जाता है ॥ २६ ॥ २७ ॥

मधुमेहशब्दकी प्रवृत्तिमें कारण ।

मधुरं यच्च सर्वेषु प्रायो मध्विव भे-
हति । सर्वेऽपि मधुमेहाख्या माधु-
र्याच्च तनोरतः ॥ २८ ॥

प्रायः सर्वप्रकारके प्रमेहोमे मनुष्य मीठा और मधुकी सदृश मूलता है और शरीरमे मधुरता होती है इस कारण सर्वप्रमेह मधुमेह नामसे कहे जाते हैं ॥ २८ ॥

प्रमेहोंकी उपेक्षा करनेसे दश
प्रकारकी पिडिका होती हैं
उनको कहते हैं:-

शराविका कच्छपिका जालिनी वि-
नतालजी । मसूरिका सर्पपिका पु-
त्रिणी सविदारिका ॥ २९ ॥ विद्र-
धिश्रापि पिडिकाः प्रमेहोपेक्षया दश ।
सन्धिमर्मु जायन्ते मांसलेपु च
धामसु ॥ ३० ॥

प्रमेहोंकी उपेक्षा करनेसे सधियोंमे, मर्मस्थानोमे और अधिक मांसवाले प्रदेशोंमे दश प्रकारकी पिडिका (फुंसिये) उत्पन्न होती है और वे अनुक्रमसे शराविका, कच्छपिका, जालिनी, विनता, अलजी, मसूरिका, सर्पपिका, पुत्रिणी, विदारिका तथा विद्रधि इन नामोंसे कही जाती हैं ॥ २९ ॥ ३० ॥

दशप्रकारकी पिडिकाओंके लक्षण ।

अन्तोन्नता च तद्रपा निम्नमध्या
शराविका । गौरसर्पसंस्थाना त-
त्प्रमाणा च सर्पपी ॥ ३१ ॥

जो पिडिका अंतमें ऊंची, मध्यमे नीची हो और सकोरेकी सदृश हो उसको शराविका कहते हैं । जो पिडिका सफेद सरसोंके समान आकारवाली और इतनी ही बड़ी हो वह सर्पपिका जाननी ॥ ३१ ॥

सदाहा कूर्मसंस्थाना ज्ञेया कच्छ-
पिका बुधैः । जालिनी तीव्रदाहा तु
मांसजालसमावृता ॥ ३२ ॥

जो पिडिका दाहयुक्त तथा कछुएके पीठकी सदृश हो उसको कच्छपिका कहते हैं, जो पिडिका तीव्र दाहवाली और सूक्ष्म नसोंके जालसे लिपटी हुई हो उसको जालिनी कहते हैं ॥ ३२ ॥

अवगाढरुजाह्लेदा पृष्ठे वाप्युदरेऽपि
वा । महती पिडिका नीला सा बुधै-
र्विनता स्मृता ॥ ३३ ॥

जो पिडिका-बड़ी, मोटी, नीलवर्णवाली और पेट तथा पीठमे उत्पन्न हुई हो वह विनता जाननी ॥ ३३ ॥

महत्यल्पचिता ज्ञेया पिडिका चापि
पुत्रिणी । मसूरसंस्थानसमा विज्ञेया
तु मसूरिका ॥ ३४ ॥

जो पिडिका बड़ी और सूक्ष्म फुंसियोंसे व्याप्त हो उसको पुत्रिणी जाननी । जो पिडिका मसूरकी दाढ़के समान बड़ी हो उसको मसूरिका जाननी ॥ ३४ ॥

रक्तासितास्फोटचिता विज्ञेया त्वल-
जी भवेत् । विदारीकन्दवद्रवृत्ता कठि-
ना च विदारिका ॥ ३५ ॥

जो पिडिका लाल तथा काली हो और अन्य फुंसियोंसे व्याप्त हो उसको अलजी कहते हैं । जो पिडिका विदारीकंदके समान गोल और कठोर हो वह विदारिका जाननी ॥ ३५ ॥

विद्रधेर्लक्षणैर्युक्ता ज्ञेया विद्रधिका
च सा ॥ ३६ ॥

जो पिडिका विद्रधिके लक्षणोंसे युक्त हो उसको विद्रधिका जाननी ॥ ३६ ॥

प्रमेहकी पिडिकाओंमें दोषोंका निर्णय ।
ये यन्मयाः स्मृता महास्तेषामेता-
स्तु तन्मयाः ।

जो प्रमेह जिस दोषसे युक्त हो उस प्रमेहकी पिडिका भी उसी दोषवाली होती है ।

विनाप्रमेहके पिडिकाओंका होना ।

विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः।
तावच्चैता न लक्ष्यन्ते यावद्रास्तुप-
रिग्रहः ॥ ३७ ॥

जिस मनुष्यकी मेदा दूषित हों उसके विना प्रमेह भी पिडिका होती है । जबतक इन पिडिकाओंने अपने अपने स्थानको भलीभाँति पकडा न हो तबतक यह पिडिका नहीं दीखती है ॥ ३७ ॥

पिडिकाओंकी असाध्यता ।

गुदे हृदि शिरस्यसे पृष्ठे मर्मसु चो-
त्थिताः । सोपद्रवा दुर्बलाग्नेः पिड-
काः परिवर्जयेत् ॥ ३८ ॥

गुदा, हृदय, शिर, कंधे, पीठ इनके मर्मस्थानोमे उत्पन्न हुई, उपद्रवयुक्त और मंदाग्निवाले मनुष्यके उत्पन्न हुई पिडिकाओंकी चिकित्सा न करे ॥ ३८ ॥

पिडिकाओंके उपद्रव ।

तृद्व्यासमांससंकोचमोहहिकामद-
ज्वराः । विसर्पमर्मसंरोधाः पिड-
कानामुपद्रवाः ॥ ३९ ॥

तृपा, ज्वास, मांसका संकोच, बेहोशी, हिचकी, मद, ज्वर, विसर्प और मर्मस्थानोमे अवरोध यह पिडिकाओंके उपद्रव हैं ॥ ३९ ॥

प्रमेहरोगकी चिकित्सा ।

प्रमेहमें हितकारक पदार्थ ।

श्यामाककोद्रवोद्दालगोधूमचणका-
ठकी । कुलित्थाश्च हिता भोज्ये
पुराणा मेहिनां सदा ॥ ४० ॥

समा, कोदो, वनकोदो, गेहूँ, चने, अरहर और कुलथी ये सब पुराने धान्य प्रमेहरोगवाले मनुष्योंको भोजनमें हितकारक हैं ॥ ४० ॥

मेहिनां तिक्तशाकानि जाङ्गला ह-
रिणाण्डजाः । यवान्नविकृतिर्मुद्गाः
शस्यन्ते शालिषष्टिकाः ॥ ४१ ॥

कडवेशक, जांगलप्रदेशके पशुपक्षियोंका मांस, जौके पदार्थ, मूँग, शालिचावल और साँठीचावल ये सब प्रमेहरोगमें हितकारक हैं ॥ ४१ ॥

प्रमेहरोगमें त्याज्य पदार्थ ।

सौवीरश्च सुरातक्रं तैलं क्षीरं घृतं
गुडम् । अम्लेशुरसपिष्टान्नानूपमां-
सानि वर्जयेत् ॥ ४२ ॥

सौवीर, मदिरा, तक्र, तेल, दूध, घी, गुड, खटाई, ईखका रस, पकान्न और अनूपदेशके जीवोंका मास इनको प्रमेहरोगी त्याग देवे ॥ ४२ ॥

तत्रादित एव प्रमेहिनमुपास्त्रिग्धम-
न्यतमेन प्रियंग्वादिसिद्धेन तैलेन वा-
मयेत्प्रगाढं विरेचयेच्च विरेचनादन-
न्तरं सुरसादिकृषायेणास्थापयेत् ।
महौषधभद्रदारुमुस्तावापेन मधुसै-
न्धवयुक्तेन दह्यमानं वा न्यग्रोधादि-
कृषायेण निस्तैलेनेति । वातोत्कटेपु-
त्नेहपानं विशेषतः ।

प्रमेहरोगमें प्रथम रोगीको प्रियंगू आदिके द्वारा सिद्ध किये हुए तेलसे त्रिग्ध करके वमन तथा विरेचन करावे, विरेचन करानेके पश्चात् सुरसादि औषधियोंके काथमें सोठ, देवदारु और नागरमोथेका चूर्ण एवं शहद तथा सेंधानमक मिलावे और फिर इस काथसे निरूहवस्ति देवे और जो दाह होती हो तो तेलरहित न्यग्रोधादि काथसे निरूह वस्ति देवे, वायुकी अधिकता-वाले प्रमेहोमें विशेष कर स्नेहपान करावे ।

पारिजातजयानिम्बवह्निगायत्रिणा
पृथक् । पाठायाः सागुरोः पीता द्व-
यस्य शारदस्य च ॥ ४३ ॥ जलेक्षु-
मद्यसिकताः शनैर्लवणपिष्टकान् ।
सान्द्रमेहान्कफान्घ्नन्ति काथाश्चाष्टौ
समाक्षिकाः ॥ ४४ ॥

फरहदका काथ करके उसमें शहद डाल कर पान करनेसे उदकप्रमेह नष्ट होता है । अरणीका काथ बनाकर शहद डाल कर पान करनेसे इक्षुमेह

नष्ट होता है । नीमके काथमें शहद डाल कर पान करनेसे सुरामेह नष्ट होता है । चीतेके काथमें शहद डाल कर पान करनेसे सिकतामेह नष्ट होता है । खैरका काथ बना कर शहद डाल कर पान करनेसे अनैमेह नष्ट होता है । पाढके काथमें शहद डाल कर पान करनेसे क्षारमेह नष्ट होता है । अगरके काथमें शहद डालकर पान करनेसे पिष्टकप्रमेह नष्ट होता है । दोनों प्रकारकी हल्दीके काथमें शहद डाल कर पान करनेसे सांद्रमेह नष्ट होता है ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

हरीतकीकटुफलमुस्तलोध्राः पाठा-
विडङ्गार्जुनधन्वयासाः । उभे हरिद्रे
तगरं विडङ्गं कदम्बशालार्जुनदीप्य-
काश्च ॥ ४५ ॥

हरड, कायफल, नागरमोथा और लोध इनका काथ बना कर उसमें शहद डाल कर पान करनेसे उदकमेह नष्ट होता है । पाढ, वायविडंग, अर्जुनकी छाल और धमासा इसके काथमें शहद डाल कर पान करनेसे इक्षु-
मेह नष्ट होता है, दोनों हल्दी, तगर और वायविडंग इनका काथ बना कर शहद डाल कर पान करनेसे सान्द्रमेह नष्ट होता है । कदमकी छाल, शालकी छाल, अर्जुनकी छाल और अजवायनका काथ बना कर शहद डाल कर पान करनेसे सुराप्रमेह नष्ट होता है ॥ ४५ ॥

दावीं विडङ्गं खदिरो धवश्च सुराह्व-
कुष्ठागुरुचन्दनानि । दाव्यग्निमन्थौ
त्रिफला च पाठा मूर्वाभया चैव तथा
श्वदंष्ट्रा ॥ ४६ ॥ यवान्युशीराण्यभ-
यागुडूचीजंबूशिवाचित्रकसप्तपर्णाः ।
पादैः कषायाः कफमेहविज्ञैर्दशोप-
दिष्टा मधुसंप्रयुक्ताः ॥ ४७ ॥

दारुहल्दी, वायविडंग, खैरसार, धावेके पुष्प इनका काथ बना कर शहद डाल कर पीनेसे पिष्टप्रमेह दूर होता है । देवदारु, कूठ, अगर और चन्दन इनके काथमें शहद डालकर पान करनेसे शुक्रप्रमेह दूर होता है । दारुहल्दी, अरणी, त्रिफला और पाढ इनका काथ बना कर शहद डाल कर पान करनेसे सिकतामेह दूर होता है । पाढ, चुरनहार और गोखरु, हर्ड, इनका काथ बना कर शहद डाल कर पान करनेसे शीतमेह

दूर होता है । अजवायन, खस, हरड और गिलोय इनका काथ बना कर शहद डाल कर पान करनेसे गर्नैमेह दूर होता है । जामुन, हर्ड, चीता और सतौन इनका काथ बना कर शहद डाल कर पान करनेसे लालाप्रमेह दूर होता है ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

उशीरलोध्राजुनचन्दनानामुशीरमु-
स्तामधुकाभयानाम् । पटोलनिम्बा-
मलकामृतानां मुस्ताभयामुष्ककवृ-
क्षकाणाम् ॥ ४८ ॥ लोधाध्रकालीय-
कधातकीनां विश्वार्जुनानां मिशि-
सोत्पलानाम् । शिरीषधान्यार्जुनके-
शराणां प्रियंगुपद्मोत्पलकिंशुकाना-
म् ॥ ४९ ॥ अथत्थपाठासनवेतसा-
नां कटकटैर्युत्पलमुस्तकानाम् । पैत्ते-
षु मेहेषु सद्योपदिष्टाः कषाययोगा
मधुसंप्रयुक्ताः ॥ ५० ॥

खस, लोध, अर्जुनकी छाल आर चन्दन इनके क्वाथमें शहद डालकर पान करनेसे अथवा खस, नागर-
मोथा, सुलैठी और हरड इनके क्वाथमें शहद डाल-
कर पान करनेसे या परवल, नीमकी छाल, आमले
और गिलोय इनके क्वाथमें शहद डाल कर पान कर-
नेसे अथवा नागरमोथा, हरड और मोखा इनके
क्वाथमें शहद डालकर पान करनेसे या लोध, आमकी
छाल, पीतचन्दन और धायके फूल इनके क्वाथमें शहद
डाल कर पान करनेसे, अथवा सोठ, अर्जुनकी छाल,
सौंफ और कमल इनके काथमें शहद डाल कर पान
करनेसे, किम्बा सिरसकी छाल, धनियाँ, अर्जुनकी
छाल और नागकेगर इनके क्वाथमें शहद डाल कर
पान करनेसे, अथवा फूलप्रियंगु, कमल, कुमुद और
ढाकके पुष्प इनके क्वाथमें शहद डाल कर पान करनेसे
अथवा पीपलकी छाल, पाढ, विजयसार और वेत
इनके क्वाथमें शहद डालकर पान करनेसे, अथवा
हल्दी, दारुहल्दी, कमल और नागरमोथा इनका
क्वाथ बना कर शहद डाल कर पान करनेसे पित्त-
जप्रमेह दूर होता है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥

कफमेहहरक्वाथसिद्धं सर्पिः कफे
हितम् ।

कफप्रमेहनाशक औषधियोंके काथसे पकाया हुआ घृत कफजप्रमेहोको दूर करता है ।

पित्तमेहघ्ननिर्यूहसिद्धं पित्तहरं घृतम् ॥ ५१ ॥

पित्तप्रमेहनाशक औषधियोंके काथसे पकाया हुआ घी पित्तजप्रमेहोको नष्ट करता है ॥ ५१ ॥

कम्पिल्लसप्तच्छदशालजानि वैभीतरौहीतककौटजानि । पटोलकालीयगदाशुरूणि क्षौद्रेण लिह्यात्कफपित्तमेही ॥ ५२ ॥

कबीला, सतौना, शाल, बहेडा, रोहेडा कुडेके बीज, परवल, दारुहलदी, कूठ और अगर इनको एकत्र पीस कर शहद मिला कर चाटनेसे कफपित्तजप्रमेह दूर होता है ॥ ५२ ॥

दूर्वाकसेरुपूतीककुम्भिकप्लवशेवलम् । जलेन कथितं पीतं शुक्रमेहहरं परम् ॥ ५३ ॥

दूब, कसेरु, दुर्गन्धकरज, कायफल, नागरमोथा और सिवार इनका जलमे काथ बना कर पान करनेसे शुक्रमेह दूर होता है ॥ ५३ ॥

त्रिफलारग्वधद्राक्षाकषायो मधुसंयुतः । पीतो निहन्ति फेनाहं प्रमेहं नियतं नृणाम् ॥ ५४ ॥

त्रिफला, अमलतास और दाख इनके काथमे शहद डाल कर पान करनेसे फेनके समान प्रमेह दूर होता है ॥ ५४ ॥

छिन्नावह्निकषायं वा पाठा कुटजरा-मठम् । तित्ताकुष्ठञ्च संचूर्ण्य सर्पिर्मैही पिबेन्नरः ॥ ५५ ॥

गिलोय और चीता इनका काथ बना कर पान करनेसे अथवा पाठ, कुडेकी छाल, हींग, कुटकी और कूठ इनका चूर्ण करके सेवन करनेसे घृतके समान प्रमेह दूर होजाता है ॥ ५५ ॥

पाठाशिरीषदुस्पर्शमूर्वातिन्दुककिंशुकम् । कपित्थानां भिषक् काथं हस्तिमेहे प्रयोजयेत् ॥ ५६ ॥

पाठ, सिरसकी छाल, जवासा, मूर्वा, तेंदू, ढाकके पुष्प और कैथ इनका काथ बना कर सेवन करनेसे हस्तिप्रमेह दूर होता है ॥ ५६ ॥

त्रिफलादारुदारुव्यब्दकाथः क्षौद्रेण मेहहा ।

त्रिफला, देवदारु, दारुहलदी और नागरमोथा इनका काथ बना कर शहद डाल कर पान करनेसे प्रमेहरोग दूर होता है ।

कुटजासनदारुव्यब्दफलत्रयभवोऽथवा ॥ ५७ ॥

अथवा कुडेकी छाल, विजयसार, दारुहलदी, नागरमोथा और त्रिफला इनका काथ बना कर पान करनेसे प्रमेहरोग नष्ट होता है ॥ ५७ ॥

गुडूच्या स्वरसः पेयो मधुना सह मेहजित् ।

अथवा गिलोयके स्वरसमे शहद डाल कर पान करनेसे प्रमेहरोग दूर होता है ।

निशाकल्कयुतो धात्रीरसो वा माक्षिकान्वितः ॥ ५८ ॥

या आमलोके रसमे हलदीका कल्क अथवा शहद डाल कर पान करनेसे प्रमेहरोग शमन होता है ॥ ५८ ॥

मधुना त्रिफलाचूर्णमथवाशमजतूद्रवम् । लोहजं वा भयोत्थं वा लिहेन्मेहनिवृत्तये ॥ ५९ ॥

त्रिफलेके चूर्णको अथवा शिलाजीतको या लोहेके भस्मको अथवा हरडोके चूर्णको शहदमें मिला कर चाटनेसे प्रमेहरोग नाश होता है ॥ ५९ ॥

कटकटेरीमधुकत्रिफलाचित्रकैः समैः । सिद्धः कषायः पातव्यः प्रमेहानां विनाशनः ॥ ६० ॥

दारुहलदी, मुलैठी, त्रिफला और चीता ये सब समान भाग लेकर क्वाथ बनावे । इस क्वाथको पान करनेसे प्रमेहरोग दूर होता है ॥ ६० ॥

फलत्रिकं दारुनिशां विशालां मु-
स्ताश्च निःकाथ्य निशांशकल्कम् ।
पिबेत्कषायं मधुसंप्रयुक्तं सर्वप्रमेहेषु
समुत्थितेषु ॥ ६१ ॥

त्रिफला, दारुहलदी, इन्द्रायण और नागरमोथा इनका क्वाथ बनाकर उसमें हलदीका कल्क और शहद डालकर पान करनेसे सर्वप्रकारके प्रमेह दूर होते हैं ॥ ६१ ॥

गोभक्षितान्यवान्मूत्रभावितान्केव-
लानपि । चित्रकोदशिता खादेन्नि-
म्बमुद्गरसेन वा । भक्षयेन्मधुना मा-
सं प्रमेही यवपिष्टकम् ॥ ६२ ॥

गाँके खोयेहुए जाँको उसके गोवरमेंसे निकाल कर गोमूत्रकी भावना देवे । अथवा चिना ही भावना दिये चित्रकवरी गाँके उदुम्बित् नामक तक्रके साथ, नीमके रसके साथ अथवा मूँगके रसके साथ सेवन करनेसे प्रमेहरोग दूर होता है । अथवा जाँकी पिठ्ठीको एक महीनेतक शहदके साथ सेवन करनेसे प्रमेहरोग दूर होना है ॥ ६२ ॥

भेदोन्नावद्मूत्राश्च समाः सर्वेषु धा-
तुषु । यवास्तस्माद्विशिष्यन्ते प्रमे-
हेषु विशेषतः ॥ ६३ ॥

जाँ-भेदको नष्ट करनेवाले, मूत्रको रोकनेवाले और सब धातुओंको समान अन्नस्थामे करनेवाले हैं । इस कारण प्रमेहरोगमें जाँ विशेष हितकारी है ॥ ६३ ॥

न्यग्रोधादि चूर्ण ।

न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थस्योनाकारग्वधा-
सनम् । आम्रं कपित्थं जंबुश्च त्रि-
यालं ककुभं धवम् ॥ ६४ ॥ मधुकं म-
धुकं लोधं वरुणं पारिभद्रकम् । पटोलं
मेषशृङ्गी च दन्ती चित्रकमाढकी ॥
॥ ६५ ॥ करञ्जत्रिफलाशक्रभल्लातकफ-
लानि च । एतानि समभागानि सू-

क्ष्मचूर्णानि कारयेत् ॥ ६६ ॥ न्यग्रो-
धाद्यमिदं चूर्णं मधुना सह योजये-
त् । फलत्रयश्चानुपिवेत्तेन मूत्रं विशु-
द्धयति ॥ ६७ ॥ एतेन विंशतिर्मेहा
मूत्रकृच्छ्राणि यानि च । प्रशमं या-
न्ति योगेन पिडिका न च जायते ॥ ६८ ॥

बड, गूलर, पीपलकी छाल, स्योनाक, अमलतास, विजयसार, आम, कैथ, जामुन, चिरौजी, कोह, धावा, मुलैठी, महुआ, लोध, वरना, फरहद, पटोल-पात, भेदाशिगी, दन्ती, चीता, बडहर, करंज, त्रिफला, इन्द्रजौ और भिलवे ये सब समानभाग लेवे । सबको एकत्र पीसकर वारीक चूर्ण करलेवे तो यह न्यग्रोधाद्यचूर्ण तैय्यार होता है । इस चूर्णको शहदके साथ सेवन करना चाहिए और इसके ऊपर त्रिफलेका क्वाथ पान करना चाहिए । इससे मूत्र शुद्ध होता है तथा बीस प्रकारके प्रमेह, सर्वप्रकारके मूत्रकृच्छ्र और सर्वप्रकारकी प्रमेहपिडिका दूर होती है ॥ ६४-६८ ॥

त्रिकट्वाद्यगुटिका ।

त्रिकटुत्रिफलातुल्यं गुग्गुलश्च समां-
शिकम् । गोक्षुरुक्वाथसंयुक्तां गुटि-
कां कारयेद्बुधः ॥ ६९ ॥ देशकालव-
लापेक्षी भक्षयेच्चानुलोमिकाम् ।
न चात्र परिहारोऽस्ति कर्म कुथ्याद्य-
थेप्सितम् ॥ ७० ॥ प्रमेहान्वातरोगांश्च
वातशोणितमेव वा । मूत्राघातं
मूत्रदोषं प्रदरश्चाशु नाशयेत् ॥ ७१ ॥

त्रिकुटा और त्रिफला यह समान भाग लेकर चूर्ण बनावे और सब चूर्णके बराबर गुग्गुल लेवे । पहले गोखुरुओके क्वाथमें गुग्गुलको शुद्ध करले फिर आग्नि पर चढाकर पूर्ण पकावे जब मावा सा हो जाय फिर गोलियाँ बनावे । इन गोलियोंको देश, काल और बलका विचार कर सेवन करना चाहिए । यह गोली-वातको अनुलोमन करनेवाली हैं । इसपर किसी प्रकारका परहेज नहीं है, इसपर अपनी इच्छानुसार आहार विहार करे । यह गोली-सर्वप्रकारके प्रमेह, समस्त वातरोग, वातरक्त, मूत्राघात, मूत्रदोष और प्रदरको नष्ट करती है ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥

दाडिमाद्यवृत ।

दाडिमस्य च बीजानि कृमिघ्नस्य च तण्डुलाः । रजनी चवकाऽजाजी नागरं त्रिफला कणा ॥ ७२ ॥ त्रिकण्टकस्य च फलं यवानी धान्यकं तथा । वृक्षाम्लचविकाकोलसिन्धुद्भवसमाहितैः ॥ ७३ ॥ कल्कैरक्षसमैरेभिर्घृतप्रस्थं विपाचयेत् । भोज्ये पाने प्रदातव्यं सर्वर्तुषु च मात्रया ॥ ७४ ॥ प्रमेहविंशतिं चैव मूत्राघातं तथाश्मरीम् । कृच्छ्रं सुदारुणाञ्चैव हन्यादेव न संशयः ॥ ७५ ॥ विबन्धानाहशूलघ्नं कामलाज्वरनाशनम् । दाडिमाद्यं घृतञ्चैतदश्विभ्यां परिकीर्तितम् ॥ ७६ ॥

अनारके दाने, वायविडंगके वावल, हलदी, चव्य, जीरा, सोंठ, त्रिफला, पीपल, गोखुरु, अजवायन, धनियाँ, विपांवल, चव्य, बेर और सैधानमक ये प्रत्येक औषधि एक एक तोला लेकर कल्क बनावे । इस कल्कके द्वारा एक प्रस्थ घृतको पकावे । अश्विनी कुमारीका कहा यह घी सर्वर्तुओमे मात्राके अनुसार भोजन पानके साथ सेवन करे । यह घृत-बीसो प्रकारके प्रमेह, मूत्राघात, अजमरी, दारुण मूत्रकृच्छ्र, विबन्ध, आनाह, शूल, कामला और ज्वरको नष्ट करता है ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥

गोक्षुरादिचूर्णगुटिका ।

धदंष्ट्रा सकणा मुस्ता गुडूची फल्गुपल्लवाः । दर्भाङ्कुराश्च गण्डीरी रोहिपस्य च पल्लवाः ॥ ७७ ॥ काला पुनर्नवा श्यामा शारिवा देवदारु च । पिप्पली शृङ्गवेरश्च विडङ्गं मरिचानि च ॥ ७८ ॥ पाठा कम्पिल्लकं भाङ्गीं छे हरिद्रे निदग्धिका । एरण्डमूलं दन्ती च चित्रकं कटुरोहिणी ॥ ७९ ॥ एतानि समभागानि सूक्ष्मचूर्णानि

कारयेत् । यावन्त्येतानि चूर्णानि द्विस्तावत् स्यादयोरजः ॥ ८० ॥ ततो विडालपदकं पिबेदुष्णेन वारिणा । अलाभे चापि मद्यानां मेहाश्रयति विंशतिम् ॥ ८१ ॥ श्वयथुश्च तथाशांसि पाण्डुरोगं हलीमकम् । उदराप्यथ शूलानि प्लीहानश्चापि कर्षति ॥ ८२ ॥ एभिर्गोमूत्रपिष्टैस्तु गुटिकां कारयेद्विषक् । रोगेष्वेतेषु मुख्याः स्युर्बलमांसविवर्द्धनाः ॥ ८३ ॥

गोखुरु, पीपल, नागरमोथा, गिलोय, कटूमरके पत्ते, दाभके अंकुर, समष्टिला, रोहिपनृणके पत्ते, निसोत, रक्तपुनर्नवा, शारिवा, देवदारु, पीपल, अदरख, वायविडंग, कालीमिरच, पाठ, कवीला, भारंगी, हलदी, दारुहलदी, कटेरी, अंडकी जड, दंती, चीता और कुटकी ये सब समान भाग लेवे और सबसे दुगुना लोहेका चूर्ण लेवे । सबको एकत्र पीसकर कपडेमे छान लेवे । इसमेसे प्रतिदिन एक तोला प्रमाण मदिराके साथ और जो मदिरा न मिले तो गरम जलके साथ पान करे । यह चूर्ण-बीसप्रकारके प्रमेह, सूजन, ववासीर, पाण्डुरोग, हलीमक, उदररोग, शूल और प्लीहाको दूर करता है । अथवा इस चूर्णको गोमूत्रमें पीसकर गोली बनावे । यह गोली भी उपरोक्त समस्त रोगोंको नष्ट करती है और विशेष करके बल तथा मांसको बढ़ाती है ॥ ७७-८३ ॥

सिंहामृतघृत ।

कण्टकार्या गुडूच्याश्च संहरेच्च शतं शतम् । सङ्कुटचोल्खले विद्रांश्चतुर्द्रोणेऽम्भसः पचेत् ॥ ८४ ॥ तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थं विपाचयेत् । त्रिकटुत्रिफलारास्ताविडङ्गान्यथ चित्रकम् ॥ ८५ ॥ काश्मर्यः पञ्चमूलानि पूतिकस्य त्वगेव च । कलिङ्ग इति सर्वाणि सूक्ष्मपिष्टानि कारयेत् ॥ ८६ ॥ अक्षमात्रां पिबेत्प्रातः शालिभिः पय-

सा हितैः । प्रमेहं मधुमेहश्च मूत्रकृ-
च्छं भगन्दरम् ॥ ८७ ॥ आलस्यश्चान्त्र-
वृद्धिश्च कुष्ठरोगं विशेषतः । क्षयं
चैव निहन्त्येतन्नाम्ना सिंहामृतं घृ-
तम् ॥ ८८ ॥

कटेरी और गिलोय सौ २ पल लेकर ओखलीमे
कूट कर चार द्रोण जलमे पकावे । जब पकते पकते
चौथाई भाग जल शेष रह जाय तब उतार कर छान
लेवे । फिर इस काथमें त्रिकुटा, त्रिफला, रायसन, वायवि-
डंग, चीता, कुम्भेर, पंचमूल, पूतिकरंजकी छाल और
इन्द्रजौ इनका कल्क बना कर डाले और इसमें एक प्रस्थ
घृतको विधिपूर्वक पकावे । प्रतिदिन प्रातःकाल इसमेसे
एक तोला प्रमाण खाय और इसपर दूधके साथ गालि-
चात्रलोका भात खाय । यह घी-प्रमेह, मधुमेह,
मूत्रकृच्छ्र, भगन्दर, आलस्य, अन्त्रवृद्धि, विशेष कर
कुष्ठरोग और क्षयरोगको नष्ट करता है ॥ ८५ ॥
॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥

धान्वन्तरघृत ।

दशमूलं करञ्जौ द्वौ देवदारु हरी-
तकी । वर्षाभूर्वरुणो दन्ती चित्रकं
सपुनर्नवम् ॥ ८९ ॥ सुधानीपकदम्बाश्च
विल्वभल्लातकानि च । शटी पुष्करमू-
लश्च पिप्पलीमूलमेव च ॥ ९० ॥ पृथग्द-
शपलान्भागानेतांस्तोयाम्मर्षणे पचेत् ।
यवकोलकुलित्थानां प्रस्थं प्रस्थं वि-
पाचयेत् ॥ ९१ ॥ तेन पादावशेषेण
घृतप्रस्थं पचेद्विषक् । निचुलं त्रिफ-
लाभाङ्गी रोहिषं गजपिप्पली ॥ ९२ ॥
शृङ्गवेरं विडङ्गानि वचा कम्पिलकं
तथा । गर्भेनानेन तत्सिद्धं पाययेत्
यथाबलम् ॥ ९३ ॥ एतद्धान्वन्तरं
नाम विख्यातं सर्पिरुत्तमम् । कुष्ठप्र-
मेहगुल्माश्च श्वयथुं वातशोणितम् ९४ ॥
प्रीहोदराणि चार्शांसि विद्रधिं पि-
डकाश्च याः । अपस्मारं तथोन्मादं
सर्पिरेतन्नियच्छति ॥ ९५ ॥ पृथक्तो-

याम्मर्षणे तत्र पचेद्रव्याच्छतं शतम् ।
शतत्रयाधिके तोयमुत्सर्गक्रमनो भ-
वेत् ॥ ९६ ॥

दशमूलकी समस्त औषधियाँ, दोनो करंज, देवदारु,
हरड, गदहपुनेरा, वरना, देती, चीता, पुनर्नवा, थूहर,
दोनो प्रकारकी कदम्ब, वेलगिरी, भिलावे, कचूर,
पोहकरमूल और पीपलामूळ प्रत्येक औषधिका चालीस
चालीस तोले चूर्ण, जौ, वेर और कुलथी ये प्रत्येक
एक एक प्रस्थ लेवे, सबको एक २ द्रोण जलमे पकावे।
जब पकते पकते चौथाई भाग जल शेष रह जाय
तब उतार कर छान लेवे । फिर इस काथमे जलवेत,
त्रिफला, भारंगी, रोहिपतृण, गजपीपल, अदरख,
वायविडंग, वच और कवीला इन प्रत्येक औषधिका
कल्क एक २ तोला और उत्तम गौका घी एक प्रस्थ
डाल कर विधि पूर्वक घृतको सिद्ध करे । इस घृतमेसे
शरीरके बलानुसार भक्षण करे । इस उत्तम घृतको
धान्वन्तर कहते है । यह घी-कोठ, प्रमेह, गुल्म, सूजन
वातरक्त, प्रीहा, उदररोग, बवासीर, विद्रधि, प्रमेह,
पिडिका, अपस्मार और उन्माद इन सबको नष्ट
करता है । इस घृतमे प्रत्येक औषधि १०० पल
लेकर अलग २ एक २ द्रोण जलमे पकानी चाहिये
॥ ८९-९६ ॥

अर्जुनादिघृत वा तैल ।

अर्जुनपटोलनिम्बैः सवचादिप्यकर-
सासमञ्जिष्ठैः । भल्लातकागुरुघनैः स-
गदानलचन्दनोशीरैः ॥ ९७ ॥ गोक्षु-
रुकसोमवलकैर्निम्बपटोलैर्हरिद्रया
वरया । अश्मन्तकार्जुनाभ्यां दीप्य-
कयुक्तेन चैव लोत्रेण ॥ ९८ ॥ माञ्जि-
ष्ठातिविषाभ्यां कल्कैर्वा कषायैः प-
चेत्तैलम् । कफवातोत्थे मेहे पित्तकृते
साधयेत्सर्पिः ॥ ९९ ॥

अर्जुनकी छाल, पटोलपात, नीमकी छाल, वच,
अजवायन, रायसन, मजीठ, भिलावे, अगर, नागर-
मोथा, कूठ, चीता, चन्दन, रस, गोखुर, और काय
फल इन सबका काथ बना कर उसमे नीमकी छाल,

पटोलपत्र, हलदी, त्रिफला, पाषाणभेद, अजुनकी छाल, अजमोद, लोध, मजीठ और अतीस इनका कल्क डालकर तेलको पकावे । इस तेलको सेवन करनेसे कफ और वातजनित प्रमेह दूर होते हैं तथा इन ही औषधियोंके क्वाथ और इन ही औषधियोंके कल्कके द्वारा पकाया हुआ घी-पित्तके प्रमेहोंको दूर करता है ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥

गोक्षुराद्यवलेह ।

गोकण्टकं सदलमूलफलं गृहीत्वा सं-
कुट्टितं पलशतं कथितन्तु तोये । पाद-
स्थितेन च जलेन पलानि दत्त्वा पश्चा-
शतञ्च विपचेदथ शर्करायाः ॥१००॥
तस्मिन्धनत्वसुपगच्छानि चूर्णितानि
दद्यात्पलद्वयमितानि सुभेषजानि ।
शुण्ठीकणामरिचनागदलत्वगैलाजा-
तीयकोशककुभत्रपुसीफलानि १०१॥
वांसीपलाष्टकामिह प्रणिधाय नित्यं
लेह्यं सुसिद्धममृतं पलसंमितन्तु । ह-
न्त्याशु मूत्रपरिदाहविवन्धशुक्रान्
कृच्छ्राश्रमरीरुधिरमेहमधुप्रमेहान् १०२

पत्ते, जड़ और फलसहित उत्तम गोखुरु १०० पल लेकर कुछएक कूट कर चौगुने जलमें पकावे । जव पकते पकते चौथाई भाग जल शेष रह जाय तव उतार कर छान लेवे । फिर इस छाने हुए काथमें उत्तम खॉड अथवा मिश्री ५० पल डाल कर पकावे । जव पकते पकते यह गाढा होजाय तव इसमें सोंठ, पीपल, मिरच, नागफेगर, दालचीनी, इलायची, जायफल, कांहेके फूल और खीरेके बीज ये प्रत्येक औषधि आठ आठ तोले पीसकर डाल देवे और वंगलांचन ३२ तोले डाल कर उतार लेवे । पश्चात् इस अमृतके समान उत्तम अवलेहमेंसे चार तोले प्रमाण ले कर नित्य सेवन करे । यह गोक्षुराद्यवलेह-मूत्रकी दाह, मूत्रावरोध, शुक्रदोष, मूत्रकृच्छ्र, पथरी, रक्तप्रमेह और मधुमेहको नष्ट करता है ॥ १०० ॥ १०१ ॥ १०२ ॥

सारलेह ।

सारवर्गकषायं चतुर्थांशावशिष्टम-

वतार्य परिस्त्राव्य पुनरवनीय सा-
ध्येत् । सिध्यति चामलकलोध्रप्रियं-
शुदन्तीकृष्णायसताम्रचूर्णान्यावपेत ।
तदेतदनुपदग्धं लेहीभूतमवतार्यार्-
स्तुगुप्तं निदध्यात् ततो यथायोगमु-
पयुञ्जीत एष लेहः सर्वमधुमेहान-
पहन्ति ।

सास्वर्गकी समस्त औषधियाँ ले कर चौगुने जलमें पकावे जव पकते पकते चौथाई भाग जल शेष रह जाय तव उतार कर छान लेवे । फिर इस काथमें आम-ले, लोव, फूलप्रियंगु, दन्ती, लोहेकी भस्म और ताँबेकी भस्म इनका चूर्ण डाल देवे, जव वह लेहके स-मान गाढा हो जाय तव जलनेके भयसे उतार लेवे । फिर इसको एक उत्तम स्वच्छ पात्रमें भर कर रख देवे । इसको विधिपूर्वक सेवन करे । इससे-सर्व प्रकारके मधुमेह नष्ट हो जाते हैं ।

असनादियोग ।

असनञ्च प्रियालञ्च सालञ्च खादिरं
तथा । सालवर्गं तथा ग्राह्यं भवेच्चैत-
द्विचक्षणः ॥ १०३ ॥ मधुमेहत्वमा-
पन्नं भिषग्भिः परिवर्जितम् । योगेना-
नेन मतिमान्प्रमेहिनमुपाचरेत् १०४॥

विजयसार, चिरौजी, साल, खैर और सालवर्ग-की औषधियाँ इन सबको एकत्र कर इनका उपयोग करनेसे प्रमेहरोग अवश्य दूर होता है । जो प्रमेह म-धुमेहताको प्राप्त हो गया हो तथा जिसकी चिकित्सा अन्य वैद्याने छोड़ दी हो वह प्रमेह भी नष्ट होता है ॥ १०३ ॥ १०४ ॥

शिलाजतु स्वर्णमाक्षिक और रौप्य- माक्षिक प्रयोग ।

मासि शुके शुचौ वापि शैलाः सू-
र्यांशुतापिताः । जतुप्रकाशं स्वरसं
शिलाभ्यः प्रस्रवन्ति हि ॥ १०५ ॥
शिलाजत्विति विख्यातं महाव्याधि-
निवारणम् । त्रिधादीनाञ्च लोहानां

षण्णामन्यतमञ्च यत् ॥ १०६ ॥ ज्ञेयं
तद्गन्धतश्चापि षड्योनिप्रथितं क्षितौ ।
लोहाद्भवति यद्यस्माच्छिलाजतु ज-
तुप्रभम् ॥ १०७ ॥ अस्य लोहस्य तद्वीर्यं
रसं वापि विभर्ति तत् । त्रपुसीसाय-
सादीनि प्रधानान्युत्तरोत्तरम् ॥ १०८ ॥
यथा तथा प्रयोगोऽपि श्रेष्ठः श्रेष्ठगु-
णः स्मृतः । तत्सर्वं तिक्तकटुकं कषा-
यानुरसं सरम् ॥ १०९ ॥ कटुपाक्यु-
ष्णवीर्य्यश्च शोषणं छेदनं तथा । तत्र
क्लृष्टु कृष्णाभं स्निग्धं निःशर्करंश्च
यत् ॥ ११० ॥ गोमूत्रगन्धि नीलं वा
तत्प्रधानं प्रचक्षते । तद्भावितं सार-
गणैर्हितदोषं दिनादितः ॥ १११ ॥ पि-
बेत्सारोदकेनैव श्लक्ष्णपिष्टं यथाब-
लम् । जाङ्गलेन रसेनाद्यात्तस्मिञ्जी-
र्णे तु भोजनम् ॥ ११२ ॥ उपयुज्य
तुलाभेव मृतस्यैवाश्मजन्मनः । वि-
जित्वा मधुमेहाख्यमन्तकं रोगशङ्क-
रम् ॥ ११३ ॥ वपुर्वर्णबलोपेतः शतं
जीवत्यनामयः । शतं शतं तुलाया-
न्तु सहस्रं दशतौलिकम् ॥ ११४ ॥
भङ्गातकविधानेन परिहारविधिः
स्मृतः । प्रमेहं कुष्ठमस्मारमुन्मादंश्ली-
पदं तथा ॥ ११५ ॥ शोषं शोफार्शसी
गुल्मं पाण्डुतां विषमज्वरम् । व्यपो-
हत्यचिरात्कालाच्छिलाजतु निषेवि-
तम् ॥ ११६ ॥ न सोस्ति रोगोऽयश्चा-
पि निह्न्यात्तच्छिलाजतु । शर्करां
चिरसंभूतां भिनत्ति च तथाश्मरी-
म् ॥ ११७ ॥ भावनालोडने चास्य
कर्तव्ये भेषजैर्हितैः । एवं च माक्षिकं
धातुं तापीजममृतोपमम् ॥ ११८ ॥
मधुरं काञ्चनाभासमम्लं वा रजत-
प्रभम् । व्यपोहति ज्वरान्कुष्ठमेहपां-

द्वाभयक्षयान् ॥ ११९ ॥ तद्भाविताङ्कु-
लित्थांश्च कपोतांश्च विवर्जयेत् ॥ १२० ॥

ज्येष्ठ अथवा आषाढके महीनेमें पर्वत सूर्य्यकी
किरणोसे संतापित होकर शिलाओंमेंसे लाखकी समान
रसको छोडते हैं, उस रसको शिलाजतु (शिलाजीत)
कहते हैं । यह शिलाजीत महाभयंकर रोगको नष्ट
कर देता है । सीसेको आदि लेकर लोहेपर्य्यंत छोटी
धातुओकी खानका शिलाजीत होता है । इस भाँति
शिलाजीत छः प्रकारका है । अपनी २ गंधसे परीक्षा
करनी चाहिए । जो शिलाजीत लोहेकी खानसे
लाखकी सदृश उत्पन्न होता है, उसमे लोहेका रस
वीर्य्य होता है । रांग, सीसा और लोहेसे लाखके
समान उत्पन्न होनेवाले शिलाजीत उत्तरोत्तर अधिक
गुणवाले हैं । सर्व प्रकारके शिलाजीतोमे लोहेका
शिलाजीत अधिक गुणवाला है । सर्व प्रकारके शिला-
जीत कडवे, चरपरे, कपैले, सारक, कटुपाकी, उष्ण-
वीर्य्य, शोषण और छेदक है । जो शिलाजीत हलका,
कालीकांतियुक्त, चिकना, शर्करारहित, गोमूत्रके
समान गंधवाला और नीली कांतियुक्त हो ऐसा
शिलाजीत उत्तम होता है । ऐसे उत्तम शिलाजीतको
लेकर सारवर्गकी औषधियोंके द्वारा भावना देकर
वारीक पीसकर सारवर्गके क्वाथके साथ शरीरके
बलानुसार पान करे और इसके पचने पर जंगली
जीवोंके मांसरसके साथ भोजन करे । जो मनुष्य इस
अमृतके समान शिलाजीतको चारसौ तोले प्रमाण
जन्मसे लेकर जीवनभरमें सेवन करता है उसके
मधुमेहनामक महापीडायुक्त यह भयंकर रोग नष्ट
होजाता है और वह सौ वर्षपर्य्यंत आरोग्यतासे जीता
रहता है । उसका शरीर, वर्ण तथा बल अति उत्तम
होजाता है । जब एक तुला (४०० तोले) खानेसे
सौ वर्षतककी आयु होती है तो दशतुलाप्रमाण खानेसे
हजारवर्षकी आयु होती है । जितना परहेज भिला-
वेको सेवन करनेसे करना पडता है उतना ही परहेज
इसमे करना चाहिए । शिलाजीतको सेवन करनेसे—
प्रमेह, काठ, अपस्मार, उन्माद, श्लीपद, क्षय,
सूजन, ववासरि, गुल्म, पाण्डुरोग और विषमज्वर
नष्ट होता है । ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो शिला-
जीतको सेवन करनेसे आरोग्य नहीं हो । शिलाजीत
वहुत दिनोंकी पथरी और शर्कराको भी नष्ट कर देता
है । हितकारी औषधियोमे शिलाजीतको भावना देवे

तथा ऐसी ही औषधियोंमें मिलाने। इसी प्रकार सोना-
माखी अथवा रूपामाखी भी अमृतके समान है । उन-
को भी सारवर्गकी औषधियोंमें भाजनादेकर सारवर्ग-
की औषधियोंके क्वाथके साथ पान करे तो इससे
द्वर, कोढ़, प्रमेह, पाण्डुरोग तथा क्षयका नाश
होता है । सोनामाखी-मधुर और सुवर्णके समान
वर्णवाली उत्तम होती है । रूपामाखी-गद्दी और
पौंदीके समान उत्तम होती है । सोनामाखी और
रूपामाखी सेवन करनेवाले मनुष्य कुम्भी और कबू-
तरके मांसको त्याग देवे ॥ १२५-१२० ॥

प्रमेहपिडिकाओंकी चिकित्सा ।

प्रमेहपिडिकानां प्राकार्यै रक्तावसे-
चनम् । पाटनञ्च विपक्वानां तासां
पानं प्रशस्यते ॥ १२१ ॥ काथो वन-
स्पतेर्वत्समृत्रं तीक्ष्णञ्च शोधनम् ।
एलादिकेन कल्केन तैलं व्रणप्रपर-
णम् ॥ १२२ ॥ काथमारग्वधादीनां
कुर्याद्दुद्धर्तनानि च । सालसारादि-
ना सेकं भोज्यादींश्चणकादिना १२३ ॥

प्रमेहपिडिकाओंमेंसे प्रथम रुधिर निकलवावे और
पक गई हों तो शस्त्रसे चिरवाना चाहिए । वनस्पति-
ओंके काथसे और बकरीके मूत्रसे तथा तीक्ष्णपदा-
र्थोंसे पिडिकाओंके स्थानको शुद्ध करे । शुद्ध करनेके
पश्चात् इलायची आदिपदार्थोंके कल्कसे पकाया हुआ
तेल लगावे जिससे व्रण भर जाय । प्रमेहपिडि-
काओंपर अमलतास आदिके काथसे उद्धर्तन करे
तथा सालसारादिके काथसे सेचन करे । और
चने आदिका भोजन देवे ॥ १२१ ॥ १२२ ॥ १२३ ॥

प्रमेहसे आरोग्यहुएकी परीक्षा ।

प्रमेहिनो यदा मूत्रमनाविलमपि-
च्छलम् । विशदं तिक्तकटुकं तदारो-
ग्यं प्रचक्षते ॥ १२४ ॥

यद्य प्रमेहगतीनां मूत्र-मन्त्र, विनिन्द्य-मन्त्रिण,
विशद, यथा प्रायः पर्येण मन्त्र-मन्त्र, आने त्वं यथा
उभयो भाग्येण इत्यादि ज्ञाना चर्चिता ॥ १२५ ॥

इति विद्वद्भिरने भाषाटीकायां
प्रमेहपिडिका समाप्त ॥ २८ ॥

अथ मेदगंगाधिकारः ।

मेदरोगका निदान ।

अव्यायामादिवास्वप्रक्षेपमलाहारने-
विनः । मधुराम्बरसप्रायः स्त्रहान्मे-
दो विवर्द्धते ॥ १ ॥

कसरत आदि परिश्रम नहीं करनेमें, निम्ने सोनेमें,
कफकारक आहार करनेमें, मधुररस, जन्मरस और
घी आदि स्नेहपदार्थोंको अधिक सेवन करनेसे मेदकी
वृद्धि होती है ॥ १ ॥

मेदवृद्धिकी सम्प्राप्ति ।

मेदसावृतमार्गत्वात्पुप्यन्त्यन्त्ये न धा-
तवः । मेदस्तु चीयते तस्मादसक्तः
सर्वकर्मसु ॥ २ ॥

मेदके बढ़नेके कारण समस्त धातुओंके मार्ग बंद
हो जाते हैं, इस कारण अन्य धातुय पुष्ट नहीं होती
इससे मेदधातु बढ़ती जाती है । जिसमें मनुष्य सब
कामोंमें असमर्थ हो जाता है ॥ २ ॥

मेदवृद्धिके लक्षण ।

धुद्रश्वासतृषामोहस्वप्रक्रथनसादनः ।
युक्तः क्षुत्स्वेददौर्गन्ध्यैरल्पप्राणोऽल्प-
मैथुनः ॥ ३ ॥ मेदस्तु सर्वभूताना-
मुदरे बस्तिपु स्थितम् । अतएवोदरे
वृद्धिः प्रायो मेदस्विनो भवेत् ॥ ४ ॥
मेदसावृतमार्गत्वाद्वायुः कोष्ठे विशे-
षतः । चरन्सन्धुक्षयेदग्निमाहारं शो-
षयत्यपि ॥ ५ ॥ तस्मात्स शत्रिं ज-
रयत्याहारश्चापि कांक्षते । विकारां-

श्वाश्रुते घोरान्कांश्चित्कालविपर्ययात्
॥ ६ ॥ एतावुपद्रवकरो विशेषादग्नि-
मारुतौ । एतौ हि दहतः स्थूलं वनं
दावानलो यथा ॥ ७ ॥ मेदस्यतीव
संवृद्धे सहसैवानिलादयः । विकार-
रान्दारुणान्कृत्वा नाशयन्त्याशु जी-
वितम् ॥ ८ ॥ मेदोमांसातिवृद्धत्वा-
च्चलस्फिगुदरस्तनः । अयथोपचयो-
त्साहो नरोऽतिस्थूल उच्यते ॥ ९ ॥
स्थूले स्युर्दुस्तराः कुष्ठविसर्पाः सम-
गन्दराः । ज्वरातीसारमेहार्शःश्लेष्मि-
दाऽपचिकामलाः । मेदसः स्वेददौ-
र्गन्ध्याज्जायन्ते जन्तवोऽणवः ॥ १० ॥

जिसके मेदकी वृद्धि हुई हो वह मनुष्य क्षुद्रश्वास,
तृषा, मोह, निद्रा, पीडा, ग्लानि, क्षुधा, पसीना तथा
दुर्गन्धतासे युक्त होता है । उसकी सामर्थ्य और मै-
थुनशक्ति घट जाती है । मेद सर्व प्राणियोंके पेटमें
रहती है इस लिये मेदकी वृद्धिवाले मनुष्यका अधिक
करके पेट बढ जाता है । वायुका मार्ग मेदसे रुकनेके
कारण वह वायु विशेष करके कोठेमें ही फिरती रह-
नेसे अग्निको प्रदीप्त करती है और किये हुए भोजन-
को सुखा भी देती है जिससे मेदवृद्धिवाले मनुष्यका
आहार तत्काल पच जाता है । फिर भोजन करनेकी
इच्छा होती है । कुछ कालके अनन्तर इस मनुष्यको
भयंकर विकारभी उत्पन्न होते है, अग्नि और वायु यह
विशेष करके उपद्रवोंको उत्पन्न करते हैं और जिस
प्रकार दावाञ्जल वनको जला देती है उसी प्रकार यह
मेद उस मोटे मनुष्यको जला देती है । मेदके अत्यन्त
बढनेपर वायु आदि धातु सहसा दारुण विकारोंको
उत्पन्न करके तत्काल जीवनका नाश कर देती है
मेद और मांसकी अत्यन्त वृद्धि होनेपर मनुष्यके
कूले, पेट और स्तन हिला करते हैं । जिसका मेद
अयोग्य प्रकारसे बढता हो वह मनुष्य बहुत मोटा
कहा जाता है । उस स्थूल मनुष्यके कोढ़, विसर्प,
भगन्दर, ज्वर, अतीसार, प्रमेह, बवासीर, श्लेष्मि-
द, अपची और कामला यह रोग दुस्तर होजाते हैं ।
मेदसे पसीनेमें दुर्गन्धता होनेपर सूक्ष्म २ जीव भी
होजाते हैं ॥ ३-१० ॥

चिकित्सा ।

पुराणाः शालयो मुद्गाः कुलित्थोदा-
लकोद्भवाः । लेखना बस्तयश्चैव
सेव्या मेदस्विना सदा ॥ ११ ॥

मेदकी वृद्धिवाला पुरुष पुराने शालिचावल, मूंग,
कुलथी और कोदो तथा लेखनवस्ति इन सबको सदैव
सेवन करे ॥ ११ ॥

अस्वप्नश्च व्यवायश्च व्यायामश्चिन्त-
नानि च । स्थौल्यमिच्छन्परित्यक्त-
क्रमेणातिविवर्धयेत् ॥ १२ ॥

जागरण, मैथुन, परिश्रम और चिन्ता इन सबको
स्थूलताकी इच्छा करनेवाला त्याग देवे और मेद-
वृद्धिवाला उक्त कर्मोंको क्रम क्रमसे बढावे ॥ १२ ॥

श्रमचिन्ताव्यवायाध्वक्षौद्रजागरण-
प्रियः । हन्त्यवश्यमतिस्थौल्यं यव
श्यामाकभोजनम् ॥ १३ ॥

मेदवृद्धिवाला मनुष्य परिश्रम, चिन्ता, मैथुन, मार्ग-
भ्रमण, शहदका सेवन और जागरण इनसे प्रेम रखे
और जौ तथा समाके चावलोंका भोजन करे, इससे
स्थूलता नष्ट होजाती है ॥ १३ ॥

सचव्यजीरकव्योषहिंशुसौवर्चलान-
लाः । मस्तुना शक्तवः पीता मेदो-
द्गा वह्निदीपनाः ॥ १४ ॥

चव्य, जीरा, त्रिकुटा, हींग, कालानमक और चीता
इनका चूर्ण बना कर दहीके पानीके साथ सेवन करे।
सत्तुओंको भक्षण करे तो मेद नष्ट होती है और अभि-
दीपन होती है ॥ १४ ॥

फलत्रयं त्रिकटुकं सतैललवणान्वित-
म् । षण्मासानुपयोगेन कफमेदोनि-
लापहम् ॥ १५ ॥

त्रिकुटा, त्रिफला, तेल और सैधानमक इनको
एकत्र मिला कर छःमहीने तक सेवन करनेसे कफ
और मेद नष्ट होता है ॥ १५ ॥

विडङ्गं नागरं क्षारं काललोहरजो
मधु । यवामलकचूर्णान्तु प्रयोगः श्रेष्ठ
उच्यते ॥ १६ ॥

वायविलंग, सोठ, जवाखार, काला लोह, शहद,
जौ और आमले इनको एकत्र मिला कर सेवन करनेसे
स्थूलता नष्ट होती है ॥ १६ ॥

मूत्रं वा त्रिफलाचूर्णं मधुयुक्तं मधूद-
कम् । बिल्वादिपञ्चमूलस्य प्रयोगः
क्षौद्रसंयुतः ॥ अतिस्थौल्यहरः प्रो-
क्तो मण्डश्च सेवितो ध्रुवम् ॥ १७ ॥

गोमूत्र अथवा त्रिफलेके चूर्णको गहदके साथ, अथ-
वा गहद मिले पानीके साथ सेवन करनेसे स्थूलता
नष्ट होती है । अथवा बृहत्पंचमूलके चूर्णको गहद-
के साथ सेवन करनेसे अत्यन्त स्थूलता नष्ट होती है ।
अथवा माँडको सेवन करनेसे स्थूलता नष्ट होती है १७

कर्कशदलवह्निसलिलं शतपुष्पाहिंशु-
संयुक्तम् । पुटकेन हन्ति नियतं सर्व-
भवां भेदसां वृद्धिम् ॥ १८ ॥

पटोलपत्र, चीता और सौंफ इतका काथ बना कर
उसमें हींग डाल कर पान करनेसे भेदकी वृद्धि नष्ट
होती है ॥ १८ ॥

क्षारवातारिपत्रस्य हिंशुयुक्तं पिवे-
न्नरः । मेदोवृद्धिविनाशाय भक्तम-
ण्डसमन्वितम् ॥ १९ ॥

जवाखार और अण्डके पत्ते इनके काथमे हींग
डाल कर सेवन करे और ऊपरसे माँडसहित भात
खाय तो इससे भेदकी वृद्धि नष्ट होती है ॥ १९ ॥

गवेधुकानां पिष्टानां यवानाश्चाथ श-
क्तवः । सक्षौद्रत्रिफलाकाथः पीतो
मेदोहरो मतः ॥ २० ॥

गरहेडुयेके अथवा जौके सत्तुओको शहद और
त्रिफलेके काथके साथ पान करनेसे भेदवृद्धि दूर
होती है ॥ २० ॥

शुद्धचीत्रिफलाकाथस्तथा लोहरजो-
युतः । अश्मजं महिपाक्षं वा तेनैव
विधिना पचेत् ॥ २१ ॥

गिलोय और त्रिफलेके काथमे लोहका चूर्ण डाल
कर पान करनेसे मेदवृद्धि रोग दूर होता है अथवा
शिलाजीत या गूगलको शमी काथमे पका कर पान
करनेसे मेदवृद्धि रोग दूर होता है ॥ २१ ॥

अतिमुक्ताद्बीजमध्यं मधुलीढं हन्त्यु-
दरवृद्धिम् । मधुना चिकमूलं तथैव
हितभोजने भुङ्क्ते ॥ २२ ॥

तेंदुकी बीजको गहदमें मिला कर चाटनेसे उदर-
वृद्धिरोग दूर होता है । अथवा चीतेकी जड़को पीस
कर गहदमें मिलाकर चाटे और ऊपरसे इमबर हि-
तकारक भोजन करे तो मेदवृद्धिरोग दूर होता है २२

यद्वा रुचकमूलं मधुद्रिधं स्थाप्यते
निशां सकलाम् । सलिलस्य तस्य
पानाजाठरवृद्धिं शमं नयति ॥ २३ ॥

अंडकी जड़को रात्रिभर गहदमें मिला कर रख
देवे । फिर प्रातःकाल उसके रसको पान करे तो
उदरवृद्धि रोग नष्ट होता है ॥ २३ ॥

प्रातर्मधुयुतं वारि सेवितं स्थौल्यना-
शनम् । उष्णमन्नस्य मण्डं वा पिव-
न्कृशतनुर्भवेत् ॥ २४ ॥

नित्य प्रातःकाल जलमें गहद मिलाकर पान कर-
नेसे स्थूलता नष्ट होती है । उष्णअन्न अथवा पकाये
हुए भातके गरम माँडको पीनेसे स्थूलता नष्ट होती
है ॥ २४ ॥

बदरीपत्रकल्केन पेया काञ्जिकसाधि-
ता । स्थौल्यं नश्येदग्निमन्थरसं वापि
शिलाजतु ॥ २५ ॥

बेरीके पत्तोंके कल्कको कांजीमे पका कर पेया
बना कर सेवन करनेसे स्थूलता नष्ट होती है । अथवा
शिलाजीतको अरणीके काथमे डाल कर पान करनेसे
भेदवृद्धिरोग दूर होता है ॥ २५ ॥

उद्धर्तन ।

शैल्यकुष्ठगुरुदेवदारुकौन्तीसमुस्ता-
त्वक्पत्रपत्रैः । श्रीवासपृक्काखर-
पुष्पदेवपुष्पं तथा सर्वमिदं प्रपिष्य ॥
॥ २६ ॥ धतूरपत्रस्य रसेन गाढमुद्घ-
र्तनं स्थौल्यहरं प्रदिष्टम् ॥ २७ ॥

भूरिछरीला, कूठ, अगर, देवदारु, रेणुका, नागर-
मोथा, दालचीनी, पंचपत्र, श्रीवासगोद, असवरग,
ब्राह्मी और लौंग इन सबको एकत्र धतूरेके पत्तोंके
रसमें पीसकर शरीरपर गाढा उबटन करनेसे स्थू-
लता नष्ट होती है ॥ २६ ॥ २७ ॥

अमृतादिगुग्गुलु ।

अमृताशुटिविल्ववत्सकं कलिङ्गप-
थ्यामलकानि गुग्गुलुः । क्रमवृद्धमिदं
मधुप्लुतं पिण्डकास्थौल्यभगन्दराञ्ज-
येत् ॥ २८ ॥

गिलोय १ भाग, इलायची २ भाग, वेलगिरी ३
भाग, कुडेकी छाल ४ भाग, इन्द्रजौ ५ भाग, हरड ६
भाग, आमले ७ भाग और गूगल ८ भाग ले, सबको
एकत्र मिलाकर एकजीव करके शहदके साथ चाट-
नेसे पिण्डिका, स्थूलता और भगन्दररोग दूर होता
है ॥ २८ ॥

दशांगगुग्गुलु ।

व्योषाग्नित्रिफलासुस्तविडङ्गैर्गुग्गुलुं
समम् । खादन्सर्वाञ्जयेद्व्याधीन्मे-
दःश्लेष्मामवातजान् ॥ २९ ॥

त्रिकुटा, चीता, त्रिफला, नागरमोथा, वायविडंग
और गूगल ये सब समान भाग लेकर एकत्र मिला-
कर इतना कूटे जो एकजीव होजाय इसके सेवन कर-
नेसे मेदरोग, कफ और आमवातजनितरोग दूर
होते हैं ॥ २९ ॥

लौहरसायन ।

गुग्गुलुस्तालमूली च त्रिफलाखदि-
रं वृषम् । त्रिवृतालम्बुषा शुण्ठी नि-
र्गुडी चित्रकस्तथा ॥ ३० ॥ एषां दश-
पलान्भागान्स्तोथे पश्चाद्वेके पचेत् ।

पादशेषं ततः कृत्वा कषायमवता-
रयेत् ॥ ३१ ॥ पलद्वादशकं देयं रु-
कमलोहं सुचूर्णितम् । पुराणसर्पिषः
प्रस्थं शर्कराष्टपलान्वितम् ॥ ३२ ॥
पचेत्तान्मये पात्रे सुशीते चावेता-
रिते । प्रस्थार्द्धं माक्षिकं देयं शिला-
जतु पलद्वयम् ॥ ३३ ॥ एलात्वचः
पलाद्धंश्च विडङ्गानि पलपत्रयम् ।
मरिचांजनकृष्णे द्वे द्विपलं त्रिफला-
न्वितम् ॥ ३४ ॥ पलद्वयन्तु कासी-
सं सूक्ष्मचूर्णीकृतं बुधैः । चूर्णं दत्त्वा
सुमथितंस्निग्धे भाँडे निधापयेत् ॥
॥ ३५ ॥ ततः संशुद्धदेहस्तु भक्षये-
दक्षमात्रकम् । अनुपानं क्षिपेत्क्षीरं
जाङ्गलानां रसं तथा ॥ ३६ ॥ वात-
श्लेष्महरं श्रेष्ठं कुष्ठमेदांदरापहम् ।
कामलापांडुरोगघ्नं श्वयथुं सभगन्द-
रम् ॥ ३७ ॥ मूर्च्छामोहविषोन्मादं
गराणि विषमाणि च । स्थूलानां क-
र्षणं श्रेष्ठं मेदुरे परमौषधम् ॥ ३८ ॥
कर्षयेच्चातिमात्रेण कुक्षिं पातालस-
न्निभम् । बल्यं रसायनं मेध्यं वाजी-
करणमुत्तमम् ॥ ३९ ॥ श्रीकरं पुत्र-
जननं वलीपलितनाशनम् । नाश्री-
यात्कदलीकन्दं काञ्जिकं करमर्दक-
म् । करीरं कारवेळश्च षट् ककाराणि
वर्जयेत् ॥ ४० ॥

गूगल, मुसली, त्रिफला, खैर, अदुसा, निसोत,
गोरखमुंडी, सोंठ, रेणुका और चीता ये प्रत्येक
औषधि दश दश पल लेकर पाच आठक जलमें
पकावे । जब पकते पकते चौथाई भाग जल शेष
रहै तब उतारकर छानलेवे, फिर इस काथमें उत्तम-
विधिसे चूर्ण कियाहुआ लोह ४ तोले, पुराना घी १
प्रस्थ और उत्तमखांड अथवा मिश्री ३२ तोले डाल
कर विधिपूर्वक ताँबेके पात्रमें पकावे । जब पककर
शीतल होजाय तब उतारलेवे । फिर इसमें उत्तम

शहद ३२ तोले, शिलाजीत ८ तोले, इलाइची और दालचीनी दो २ तोले, वायविडग १२ तोले, काली मिरच ८ तोले, पीपल ८ तोले, रसौत अथवा अंजन ८ तोले, त्रिफलेकी औपधि ८ तोले और कसीस ८ तोले लेवे, इन सबको बारीक पीस कर चूर्ण करके एकत्र मिलादेवे और खूब करछीसे चलाकर एकमएक करलेवे पश्चात् एक उत्तम चिकने वासनमे भरकर रखदेवे । फिर वमन विरेचनादिसे शुद्ध होकर इसमेसे एक तोलाप्रमाण भक्षण करे और ऊपरसे दूध तथा जांगलजीवोके मांसके रसका अनुपान करे । उत्तम लोहरसायन-वातकफनाशक, कुष्ठ, मेद, उदररोग, कामला, पाण्डुरोग, तथा सूजन, भगंदर, मूर्च्छा, मोह, विष, उन्माद, गरदोष और विषमरोगोंका दूर करता है । स्थूलमनुष्योंको कृश करनेवाली, मेदरोगकी परम औपधि और उदरको अत्यन्त पतला करनेवाली है । बलकारक, रसायन, मेधाजनक, उत्तम वाजीकरण, लक्ष्मीजनक, पुत्रको उत्पन्न करनेवाली, बली (शरीरमें बलका अर्थात् झुररी पडना) और पलित (विना ही समय बालोंका सफेद होना) रोगको नष्ट करनेवाली है । इस रसायनपर केला, कंद, कांजी, करोंदा, करारि और करेला इन छः पदार्थोंको छोड़ देवे ॥ ३०-४० ॥

लोहारिष्ट ।

सालासारादिनिर्ग्रहं चतुर्थांशावशेषितम् । परिष्कृतं ततः शीतं मधुना मधुरीकृतम् ॥ ४१ ॥ फाणतीभावमापन्नं गुडं शोधितमेव वा । श्लक्ष्णपिष्टानि चूर्णानि पिप्पल्यादेर्गणस्य च ॥ ४२ ॥ एकध्यमावपेत्कुम्भे संस्कृते घृतभाविने । पिप्पलीचूर्णमधुभिः प्रलिप्ते चान्तरे शुचौ ॥ ४३ ॥ सूक्ष्माणि तीक्ष्णलोहस्य तनुपत्राणि बुद्धिमान् । खादिराङ्गारतप्तानि बहुशः प्रक्षिपेद्बुधः ॥ ४४ ॥ सुपिधानं ततः कृत्वा यवराशौ निधापयेत् । मासांघ्नीश्चतुरो वापि यावदालोहसंक्षयात् ॥ ४५ ॥ ततो जातरसं ज-

न्तुः प्रातः प्रातर्यथाबलम् । उपयु-
आद्यथायोगमाहारं चास्य कल्पये-
त् ॥ ४६ ॥ एष स्थूलं कृशेन्नूनं नष्ट-
स्याग्नेः प्रसाधनम् । शोथघ्नः कुष्ठमे-
हघ्नो गुल्मपांद्वाभयापहः ॥ ४७ ॥
प्लीहोदरहरः शीघ्रं विषमज्वरनाश-
नम् । अभिष्यंदापहरणो लोहारिष्टो
महागुणः ॥ ४८ ॥

सालसारादि गणकी औपधियोंको लेकर चौगुने जलमें पकावे । जब पककर जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उतार कर छान लेवे । फिर शीतल होने पर मधु डाल कर मधुर करलेवे, फिर शुद्ध गुडकी चासनी कर उसमे पिप्पल्यादिगणका बारीक चूर्ण और उक्त काथ मिलादेवे । फिर घी चुपडे हुए पवित्रपात्रमे पीपलका चूर्ण और शहद चुपडकर रखदेवे । पश्चात् उसमे बुद्धिमान् वैद्य सूक्ष्म और पतले लोहेके पत्रोंको खरके अंगारोपर बारंबार तपाकर छोडे फिर पात्रके मुखको भलीभाँति बंद कर उस घडेको तीन चार महीनेतक अथवा जबतक लोहा गले तब तक जोके ढेरमे रखे, यह सब लोहा उसमे रसरूप हो जाय तो लोहारिष्ट सिद्ध होता है । शरीरादिके बलानुसार प्रातःकाल यह लोहारिष्ट पीवे और उसके ऊपर योग्य आहार करे तो यह स्थूलशरीरको पतला करदेता है, नष्ट हुई जठराग्नि फिरसे दीपन होती है और सूजन, कोठ, प्रमेह, गुल्म, पाण्डुरोग, प्लीहा, उदररोग और विषमज्वरको नष्ट करता है । यह महागुणान्वित लोहारिष्ट-अभिष्यन्दाशक है ॥ ४१-४८ ॥

व्योषाद्यशक्तूपयोग ।

व्योषचित्रकशिशूणि त्रिफलां कटुरो-
हिणीम् । बृहत्यौ द्वे हरिद्रे द्वे पाठाम-
तिविषां स्थिराम् ॥ ४९ ॥ हिंशुकैम्बुक-
मूलानि यवानी धान्यचित्रकम् । सौ-
वर्चलमजाजी च हपुषा चेति चूर्ण-
येत् ॥ ५० ॥ चूर्णं तैलघृतक्षौद्रभा-
गाः स्युर्मानतः समाः । शक्तूनां षो-
डशगुणे भागः संतर्पणं पिबेत् ॥ ५१ ॥
प्रयोगात्त्वस्य शाम्यन्ति रोगाः सं-
तर्पणोत्थिताः । प्रमेहा मूढवाताश्च

कुष्ठान्यशीसि कामलाः ॥ ५२ ॥
पांडुप्लीहामयः शोफो मूत्रकृच्छ्रमरो-
चकम् । हृद्रोगो राजयक्ष्मा च कास-
श्वासो गलग्रहः ॥ ५३ ॥ कृमयो
ग्रहणीदोषः श्वेत्यं स्थौल्यमतीव च ।
नराणां दीप्यते बहिः स्मृतिर्बुद्धिश्च
वर्द्धते ॥ ५४ ॥

त्रिकुटा, चीता, महिजनेको जड, त्रिफला, कुटकी,
बडी कटेरी, कटेरी, हलदी, दारुहलदी, पाठ, अतीस,
शालिपर्णी, हींग, केउंआकी जड, अजवायन, घनियाँ,
चीता, कालानमरु, जीरा और हाऊवर-इन सबको
समान भाग लेकर वारीक पीस कर चूर्ण बनालेवे,
फिर निलका तेल, घी और शहद प्रत्येक चूर्णको
बराबर लेवे और जोके सत्तु १६ भाग लेवे, सबको
एकत्र मिलाकर किसी शीतलपदार्थके साथ सेवन
करे । इमसे-प्रमेह, मूढवात, कोड, बवासीर,
कामला, पांडुरोग, ग्रीहा, सूजन, मूत्रकृच्छ्र, अनाचे,
हृदयरोग, राजयक्ष्मा, खाँसी, श्वास, गलग्रह, कृमि-
रोग, संग्रहणीरोग, श्वित्रकुष्ठ और विशेष करके
स्थूलता नष्ट होती है, अभि दीपन होती है, स्मरणशक्ति
और बुद्धिकी वृद्धि होती है ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥
॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥

त्रिफलादि तैल ।

त्रिफलातिविषामूर्वात्रिवृच्चित्रकवा-
सकैः । निम्बार्गवधषड्ग्रन्थासप्तपर्णा-
निशाद्वयैः ॥ ५५ ॥ गुडूचीन्द्रासुरी-
कृष्णाकुष्ठसर्षपनागरैः । तैलमेभिः स-
मैः पक्वं सुरसादिरसप्लुतम् ॥ ५६ ॥
पानाभ्यञ्जनगंडूषणस्यवस्तिषु योजि-
तम् । स्थूलताऽऽलस्यपांड्वादीन्क्षये-
त्कफकृतांगदान् ॥ ५७ ॥

त्रिफला, अतीस, मूर्वा, निसोत, चीता, अड्डसा,
नीम, अमलतास, वच, सतवन, हलदी, दारुहलदी,
गिलोय, इन्द्रायण, पीपल, कूठ, सरसो और सोठ इनके
कल्कके द्वारा और सुरसादिगणकी औषधियोंके
काथके द्वारा तेलको पकावे । इस तेलको पान, अभ्यं-
जन, गण्डूष, नस्य और वस्तिकर्ममें प्रयोग करे ।

यह तेल-स्थूलता, आलस्य, पांडुभादिरोग और कफ-
जनितरोगोंको नष्ट करता है ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥

महासुगन्धि तैल ।

चन्दनं कुंकुमोशीरप्रियंगुवृटिरोच-
नाः । तुरुष्कागुरुकस्तूरी कर्पूरो जा-
तिपत्रिका ॥ ५८ ॥ जातीकङ्गोलप-
गानां लवङ्गस्य फलानि च । नालि-
कानलदं कुष्ठं हरेणु तगरं प्लवम् ॥ ५९ ॥
नखं व्याघ्रनखं स्पृक्षा बोलो दमनकं
तथा । स्थौण्यकं चोरकश्च शैलेयं
शैलवालुकम् ॥ ६० ॥ सरलं सप्तपर्ण-
श्च लाक्षा तामलकी तथा । लामज्ज-
कं पद्मकश्च धातक्याः कुसुमानि च
॥ ६१ ॥ प्रपौण्डरीकं कर्चूरं समांशैः
शाणमात्रकैः । महासुगन्धामित्येत-
तैलप्रस्थेन साधयेत् ॥ ६२ ॥ प्रस्वेद-
मलदौर्गन्ध्यकंडूकुष्ठहरं परम् । अने-
नाभ्यक्तगात्रस्तु वृद्धः सप्ततिकोऽपि
वा ॥ ६३ ॥ युवा भवति शुक्राढ्यः
स्त्रीणामत्यन्तवल्लभः । सुभगो दर्श-
नीयश्च गच्छेच्च प्रमदां शतम् ॥ ६४ ॥
वन्ध्यापि लभते गर्भं षण्ढोऽपि पुरु-
षायते । अपुत्रः पुत्रमाप्नोति जीवेच्च
शरदां शतम् ॥ ६५ ॥

चंदन, केशर, खस, फूलप्रियंगु, इलायची, गोरो-
वन, लोवान, अगर, कस्तूरी, कपूर, जावित्री, जाय-
फल, ककोल, सुपारी, लौंग, नली, वालछड, कूठ,
रेणुका, तगर, नागरमोथा, नख, व्याघ्रनख, असव-
रग, बोल, दौना, मुरला, शुनेर, चोरक (भटेउर),
भूरिछरीला, एलुआ, धूपसरल, सतौना, लाख,
भुईआमला, लामज्जकतृण, पद्माख, धायके फूल,
पुंडेरिया और कर्चूर, ये प्रत्येक पदार्थ चार चार
मासे लेकर कल्क बनाकर चौसठ तोले तेलमें डाल-
कर पकावे तो यह महासुगन्धितैल सिद्ध होता है ।
इस तेलको व्यवहार करनेसे-पसीना, मलसे हुई
दुर्गंधता, खुजली और कोड ये सब नष्ट हो जाते

है। इस तेलकी मालिश करनेसे सत्तर वर्षका वृद्ध भी युवा, अधिकवीर्यवान्, स्त्रियोंको अत्यन्त प्रिय, भाग्यवान्, सुन्दर और सौ स्त्रियोंसे प्रसंग करनेको समर्थ होता है। वध्या स्त्रियोंके गर्भ रहता है, नपुंसक मनुष्य भी पुरुषत्वको प्राप्त होता है, विनापुत्रवाले स्त्रीपुरुषोंके पुत्रकी प्राप्ति होती है और सौ वर्षकी आयु होती है ॥ ५८-६५ ॥

वासादलरसो लेपाच्छङ्खचूर्णेन संयु-
तः । विष्वपत्ररसो वापि गात्रदौर्ग-
न्ध्यनाशनः ॥ ६६ ॥

अद्वसके पत्तोंके रसमें शखका चूर्ण डालकर लेप करनेसे अथवा बेलके पत्तोंके स्वरसका लेप करनेसे शरीरकी दुर्गंध दूर होती है ॥ ६६ ॥

अलम्बुषाभवं चूर्णं पीतं काञ्जिकसं-
युतम् । दौर्गन्ध्यं नाशयत्याशु दुष्टं
मेदोभवं नृणाम् ॥ ६७ ॥

गोरखमुंडीके चूर्णको कांजीके साथ पान करनेसे दुष्टमेदजनित शरीरकी दुर्गंध दूर होती है ॥ ६७ ॥

बिल्वशिवासमभागाल्लेपाद्भुजमूलग-
न्धमपहरति । परिणिततिन्तिडिका-
न्वितपूतिकरओत्थबीजं वा ॥ ६८ ॥
चिश्वापत्रस्वरसं म्रक्षितकक्षादियो-
जितं जयति । दुग्धहरिद्रोद्धर्तनम-
चिराच्चिरेदेहदौर्गन्ध्यम् ॥ ६९ ॥

बेलके पत्ते और हरड इन दोनोंको समान भाग लेकर एकत्र पीसकर लेप करनेसे वगलकी दुर्गंध दूर होती है या इमलीके बीज और दुर्गंध करजके बीजोंको पीस कर लेप करनेसे अथवा दुर्गंधित करजके बीजोंके कल्कको इमलीके पत्तोंके स्वरसमें डालकर लेप करनेसे अथवा इमलीके स्वरसको मलनेसे शरीरकी दुर्गंध दूर होती है। हलदीको दूधमें पीस कर उसका शरीरपर उद्धर्तन करनेसे बहुत शीघ्र शरीरकी दुर्गंध दूर होती है ॥ ६८ ॥ ६९ ॥

शिरीषलामज्जकहेमलोध्रैस्त्वग्दोषसं-
स्वेदहरः प्रकर्षः । पत्रांबुलोध्रामयच-
न्दनानि शरीरदौर्गन्ध्यहरः प्रदेहः ७०

गिरस, लामज्जकनृण, नागकेशर और लोध इनका चूर्ण घना कर शरीरपर मलनेसे त्वचाके विकार और पसीना दूर होता है। तेजपात, सुगन्धवाला, लोध, कूठ और चन्दन इनको एकत्र पीस कर शरीरपर प्रलेप करनेसे शरीरकी दुर्गंध दूर होती है ॥ ७० ॥

हिलमोचरसायुक्तश्चूर्णरुदधिकेनजैः ।
प्रलेपेन हरत्याशु देहदौर्गन्ध्यमुत्क-
टम् ॥ ७१ ॥

समुद्रफेनको हलहलके रसमें पीसकर लेप करनेसे शरीरकी दुर्गंध दूर होती है ॥ ७१ ॥

हरीतकीन्तु संपिष्य गात्रमुद्धर्तये-
त्ररः । पश्चात्स्नानं प्रकुर्वीत देहप्रस्वे-
दशान्तये ॥ ७२ ॥

हरडको पीस कर शरीरपर उबटन करे पश्चात् स्नान करे तो प्रस्वेदसे होनेवाली शरीरकी दुर्गंध दूर होती है ॥ ७२ ॥

बबुलस्य दलैः सम्यग्वारिणा परिपै-
षितैः । गात्रमुद्धर्तयेत्पश्चाद्धरीतक्या
सुपिष्टया ॥ ७३ ॥ भूय उद्धर्तनं कृ-
त्वा पश्चात्स्नानं समाचरेत् । प्रस्वेदा-
न्मुच्यते शीघ्रं ततस्त्वेवं समाच-
रेत् ॥ ७४ ॥

बबूरके पत्तोंको अच्छे प्रकारसे जलमें पीस कर शरीर पर उद्धर्तन करे, अथवा हरडको पीसकर शरीर पर उद्धर्तन करे पश्चात् स्नान करे तो शीघ्र शरीरका पसीना और दुर्गंध दूर होती है ॥ ७३ ॥ ७४ ॥

चन्द्रांशुसलिलं लोध्रं शिरीषोशी-
रकेसरैः । उद्धर्तनं भवेद्ग्रीष्मे स्वेदक-
र्मनिवारणम् ॥ ७५ ॥

कपूर, सुगंधवाला, लोध, गिरस, खस और नाग-
केशर इनको एकत्र पीसकर ग्रीष्मकालमें उद्धर्तन कर-
नेसे पसीना दूर होता है ॥ ७५ ॥

सुरया सममभयाफलचूर्णं मधुना
धिलिह्य त्रत्यूपम् । स्वेदान्हत्वा ल-
भते पुरुषोऽप्यत्यन्तसौरभ्यम् ॥ ७६ ॥

हरडके चूर्णको मदिराके साथ अथवा गहदके साथ प्रातःकाल सेवन करनेसे पसीना नष्ट होकर अत्यन्त सुगन्ध उत्पन्न होती है ॥ ७६ ॥

मल्लीकुसुमाभयकरिलेपो घर्म वि-
निहन्ति सदाहम् । विचकिलपत्र-
हरिद्रे कर्कटिपत्रं सदर्श्या सहितम् ।
सांपिप्य गात्रलेपाद् घर्म विविधं शमं
याति ॥ ७७ ॥

मोतियाके फूल हर्ड और नागकेसर इनको एकत्र पीसकर शरीरपर प्रलेप करनेसे पसीना, दाह और दुर्गन्ध दूर होती है । वानेके पत्ते, हलदी, ककड़ोंके पत्ते और दूध इनको एकत्र पीसकर शरीरपर लेप करनेसे पसीना और दुर्गन्ध दूर होती है ॥ ७७ ॥

हस्तपादसुतां योज्यं गुग्गुलुं पञ्चति-
क्तकम् । अशक्तौ पञ्चतिक्तं वा पक्ता
खोददतन्द्रितः ॥ ७८ ॥

जो हाथ पाँव पसीजते हों तो गुग्गुलु और पंच-
तिक्तघृतको सेवन करें । शरीरमें शक्ति न हो तो
पच्यसे रहकर पंचतिक्तघृतको सेवन करें ॥ ७८ ॥

इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां
मेदोधिकार संपूर्ण ॥

अथ उदररोगाधिकार ।

उदररोगका निदान ।

रोगाः सर्वेऽपि मन्देऽशौ सुतरामुदराणि
च । अजीर्णान्मलिनैश्चात्रैर्जायन्ते
मलसञ्चयात् ॥ १ ॥

प्रायः सर्वप्रकारके रोग मन्दाग्निसे उत्पन्न होते हैं
और उदररोग विशेषकर मन्दाग्निक होनेसे तथा
अजीर्णकारक पदार्थों और दूषित अन्नको सेवन
करनेसे और कोष्ठबद्धताके होनेसे अथवा मलिन
अन्नको भोजनसे उत्पन्न होता है ॥ १ ॥

उदररोगकी सम्प्राप्ति ।

रुद्धा स्वेदांबुवाहीनि दोषाः स्रो-
तांसि सञ्चिताः । प्राणाग्न्यपाना-
न्संदूष्य जनयन्त्युदरं नृणाम् ॥ २ ॥

संचित हुए दोष, स्वेद और अम्बुवाहिनी संपूर्ण
शरीरके स्रोतोंको रोककर तथा अग्नि और प्राण एव
अपानवायुको दूषित करके मनुष्योंके उदररोगको
उत्पन्न करते हैं ॥ २ ॥

उदररोगके पूर्वलक्षण ।

तत्पूर्वरूपं बलवर्णकाङ्क्षा वलीवि-
नाशो जठरे निरोधः । जीर्णाऽपरि-
ज्ञानविदाहयुक्तो बस्तो रुजः पाद-
गलश्च शोथः ॥ ३ ॥

जब उदररोग उत्पन्न होनेको होता है तब उससे
पहले उदरमें मल, मूत्र और अपान वायुका रुकना,
बल, वर्ण, आकांक्षा और त्रिवली इनका नाश होता
है । भोजनके जीर्ण होनेपर भी सन्देहका रहना, दाह,
मूत्राग्नयमें पीडा, पाँवमें और गलेमें सूजन होती
है ॥ ३ ॥

उदररोगके सामान्यलक्षण ।

आध्मानं गमनेऽशक्तिर्दौर्बल्यं दुर्ब-
लाग्निता । शोथः सदनमङ्गानां सं-
गो वातपुरीषयोः । दाहस्तन्द्रा च
सर्वेषु जठरेषु भवन्ति हि ॥ ४ ॥

अफारा, चलनेमें असमर्थता, दुर्बलता, अग्निकी
मन्दता, सूजन, अंगोका टूटना, वायु तथा विष्ठा-
का अवरोध, दाह और तन्द्रा ये लक्षण सामान्यरूपसे
सर्वप्रकारके उदररोगोंमें होते हैं ॥ ४ ॥

उदररोगसंख्या ।

पृथग्दोषैः समस्तैश्च प्लीहबद्धक्षतो-
दकैः । सम्भवन्त्युदराण्यष्टौ तेषां
लिङ्गं पृथक् शृणु ॥ ५ ॥

उदररोग आठप्रकारके कहे हैं । जैसे कि, वातिक,
पित्तिक, शैष्मिक, सान्निपातिक, ग्रीहोदर, बद्धोदर

अथान् कठांदर, क्षतांदर और जलोदर । अत्र इनके लक्षण अलग अलग सुनो ॥ ५ ॥

वातोदरके लक्षण ।

तत्र वातोदरे शोथः पाणिपात्राभिकुक्षिषु । कुक्षिपाश्र्वोदरकटीपृष्ठरुक्पर्षभेदनम् ॥ ६ ॥ शुष्ककासाङ्गमर्दश्च गुरुता मलसंग्रहः । श्यावारुणत्वगादित्वमकस्माद्बृद्धिहासवत् ॥७॥ सतोदभेदमुदरं तनुकृष्णाशिरात-तम् । आध्मानदृतिवच्छब्दमाहृतं प्रकरोति च । वायुश्चात्र सरुक्छब्दो विचरेत्सर्वतो गतिः ॥ ८ ॥

वातोदर रोगमे हाथ, पाँव, नाभि और कोखम सूजन हो एवं कोख, पसली, पेट, कमर और पीठमे पीडा हो, सधियोमे तोडने सरीखी पीडा होती है । सूखी खाँसी, शरीरका टूटना, नाभिके नीचेका भाग भारी मालूम होना, मलरोध, त्वचादिका रग धूसर या लाल हो, अकस्मात् उदर घटे वढे, सुई चुभोनेकेसी और तोडने सरीखी पीडा हो, पेटमे सून्म और काले रगगी नसोंसे उदर व्याप्त हो, उदरमे अगुली मारनेसे फूली मगककासा शब्द हो, इस वातोदरमे वायु सर्वत्र विचरण करती हुई शब्द और पीडा करती है ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥

साध्यासाध्यविचार ।

जन्मनेवोदरं सर्वं प्रायः कृच्छ्रतमं म-तम् । बलिनस्तदजातास्यु यत्नसाध्यं नवोत्थितम् ॥ ९ ॥

प्रायः आठोंप्रकारके उदररोग उत्पन्न होते ही कष्ट-साध्य हो जाते है । बलवान् मनुष्यके थोडे दिनोंसे उत्पन्न हुआ हो और उसमे जल उत्पन्न नहीं हुआ हो ऐसा रोगी कदाचित् वडे यत्न करनेसे साध्य हो जाता है ॥ ९ ॥

अजातोदकके लक्षण ।

अजातशोथमरुणं सशब्दं नातिभारिकम् । सदा गुडगुडायन्तं शिराजालगवाक्षितम् ॥ १० ॥ नाभिं विष्टभ्य पायौ तु वेगं कृत्वा प्रशाम्यति ।

हृद्गुडक्षणकटीनाभिगुदं प्रत्येकशूलि-नः ॥ ११ ॥ कर्कशं सृजतेऽपानं ना-तिमन्दं च पावकं । लालयाऽचिरमे-वास्थे मूत्रेऽल्पं संहते बहिः । अजा-तोदकमित्येतेर्युक्तं विजाय लक्षणैः १२॥

उदर सूजनराहत हा . शरीर या पेटमें लाली हों, शब्द हों, कुछ भारीपन मालूम हो, नद्वैध गुड-गुड शब्द हो, शरीरकाके समान नमोंके बालसे व्याप्त हो और वायु नाभिको फुलाकर वेगको धारण करके गुदामें जाकर शान्त हो जाती है । रोगीके हृदय, वक्षण, कमर और गुदा इन प्रत्येकमें पीडा हों, अपानवायु कठिनतासे निकले, अग्नि सर्वथा मन्द न हो, मुखमें थोडा २ डेरमें लारबहे और विरसता हो, मूत्र थोडा उतरे, मल अधिक निकले और ग्रोप परम्पर मिले हों तो इन लक्षणोंसे युक्त जानना चाहिए कि उदररोगमे जल उत्पन्न नहीं हुआ है ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥

वातोदरकी चिकित्सा ।

उपक्रमेद्भिषग्दोषबलकालविशेषवि-त । स्थिरादिसर्पिपः पानं स्नेहस्वेद-विरेचनम् ॥ १३ ॥

प्रथम वैद्य रोगीके दोषोका बलावल और काल-को अच्छे प्रकारसे विचारकर स्थिरादिघृत पान करावे तथा स्नेह, स्वेद और विरेचन देवे ॥ १३ ॥

वेष्टनं वाससा नाभौ शाल्वणश्वोपना-हनम् । चित्रतैलं स्थिराद्यन्तु निरूहः सानुवासनः । पयोयूषरसान्नाश्च योज्यं वातोदरे क्रमात् ॥ १४ ॥

रोगीकी नाभिके ऊपर बन्धोको लपेटकर शाल्वण और उपनाहन स्वेद देवे । स्थिरादि औषधियोंके क्वाथमे अण्डीका तेल डालकर निरूह और अनुवा-सनवस्ति देवे । तथा दूध, यूप, मांसरस और अन्न ये क्रमसे प्रयोग करे ॥ १४ ॥

एरण्डादि तैल ।

एरण्डतलं दशमूलमिश्रं गोमूत्रयुक्त-स्त्रिफलारसो वा । निहन्ति वातो-दरशोथशूलं काथः समूत्रो दशमू-लजश्च ॥ १५ ॥

अण्डीके तेलमें दशमूलका चूर्ण डाल कर पान करनेसे अथवा त्रिफलेके काथमे गोमूत्र डाल कर पान करनेसे, या दशमूलके काथमे गोमूत्र डाल कर पान करनेसे वातोदर, सूजन और शूल यह नष्ट होते हैं १५

कुष्ठं दन्तीयवक्षारं व्योषं त्रिलवणं वचा । अजाजीदीप्यकं हिंशु स्वर्जिकाचव्यचित्रकम् ॥ १६ ॥ शुण्ठी चोष्णांडुना पीता वातोदररुजापहा १७ ॥

कूठ, दन्ती, जवाखार, त्रिकुटा, सैधानमक, कालानमक, सौभरनमक, वच, जीरा, अजवायन, हींग, सज्जी, चव्य, चीता और सोठ इन सबको एकत्र पीस कर गरमजलके साथ पान करनेसे वातोदररोग दूर होता है ॥ १६ ॥ १७ ॥

दशमूलीकषायेण क्षीरयुक्तं शिलाजतु । सद्यो वातोदरी क्षीरमौष्टं वाऽशानु केवलम् ॥ १८ ॥

दशमूलके काथमें दूध और शिलाजीत डाल कर पान करनेसे अथवा केवल ऊंटनीके दूधको पान करनेसे वातोदररोग दूर होता है ॥ १८ ॥

सामुद्राद्यचूर्ण ।

सामुद्रसौवर्चलसैन्धवानां क्षारो यवानामजमोदकश्च । सपिप्पलीचित्रकशृङ्गवेरं हिंशुं विडञ्चेति समानि कुर्यात् ॥ १९ ॥ एतानि चूर्णानि घृतप्लुतानि युञ्जीत पूर्वं कवले प्रशस्तम् । वातोदरं गुल्ममजीर्णभुक्तं वायुप्रकोपं ग्रहणीश्च दुष्टाम् ॥ २० ॥ अर्शांसि दुष्टानि च पांडुरोगं भगन्दरञ्चेति निहन्ति सद्यः ॥ २१ ॥

समुद्रनमक, कालानमक, सैधानमक, जवाखार, अजमोद, पीपल, चीता, अदरख, हींग और विडनमक ये सब समान भाग लेकर चूर्ण बनालेवे । इस चूर्णको घीमें मिलाकर भोजनके प्रथम ग्रासमें मिलाकर भक्षण करे । इससे—वातोदर, गुल्म, अजीर्ण, वातका प्रकोप, दुष्ट सग्रहणी, दुष्ट ववासीर, पाण्डुरोग और भगन्दररोग ये सब नष्ट होते हैं ॥ १९-२१ ॥

दशमूलषट्पलघृत ।

पिप्पली पिप्पलीमूलं चव्याचित्रकनागरैः । सर्षोद्वैरर्द्धपलिकैर्द्विप्रस्थं सर्षिषः पचेत् ॥ २२ ॥ कल्कैर्द्विपञ्चमूलस्य तुलाद्धस्य रसेन तु । दधिमण्डाढकं दत्त्वा तत्सर्षिर्जठरापहम् ॥ २३ ॥ श्वयथुं वातविष्टम्भं गुल्मार्शांसि च नाशयेत् । अनया मात्रया वारद्वयं पाच्यमिदं हविः ॥ २४ ॥

पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, सोठ और शहद ये प्रत्येक दो दो तोले लेवे, उत्तम गौका घो २ प्रस्थ, दशमूलका कल्क और काथ २०० तोले और दहीका मांड एक आठक परिमाण—इन सबको एकत्र मिला कर विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे । यह घृत—उदररोग, सूजन, वातविष्टम्भ, गुल्म और ववासीरको नष्ट करता है । इस घृतको इसी मात्रासे दो बार पकाना चाहिए ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥

दशमूलाद्यघृत ।

दशमूलीकषायेण रास्त्रानागरदारुभिः । पुनर्नवाभ्याश्च घृतं सिद्धं वातोदरापहम् ॥ २५ ॥

दशमूलके काथ, रायसन, सोठ, देवदारु और पुनर्नवा इनके कल्कके द्वारा घृतको पकावे । यह घृत वातोदररोगको नष्ट करता है ॥ २५ ॥

लशुनतैल ।

लशुनस्य तुलामेकां जलद्रोणे विपाचयेत् । चतुर्भागावशेषन्तु कषायमवतारयेत् ॥ २६ ॥ तत्काथश्च परिस्त्राव्य विशाले ताम्रभाजने । चित्रतैलाढकं दद्याद्देषजानि प्रदापयेत् ॥ २७ ॥ त्रिकटु त्रिफला दन्तीहिंशुसैन्धवचित्रकम् । देवदारुवचाकुष्ठं मधुशिशुपुनर्नवम् ॥ २८ ॥ सौवर्चलविडङ्गानि दीप्यकं हस्तिपिप्पली ।

एतेषां पलिकान्भागान्छिवृताद्धपला-
नि च ॥ २९ ॥ पिष्ट्वा कपायेणानेन
शनैर्मृद्वाग्निना पचेत् । तत्पिबेत्प्रात-
रुत्थाय यथाग्निबलमात्रया ॥ ३० ॥
निहन्ति सर्वरोगाणि जठराणि वि-
शेषतः । मूत्रकृच्छ्रमुदावर्तमन्त्रवृद्धिं
गुदकृमीन् ॥ ३१ ॥ पार्श्वकुक्षिभवं
शूलमामशूलमरोचकम् । यकृदष्टी-
लिकानाहान्प्लीहानश्चाङ्गवेदनम् ।
मासमात्रेण नश्यन्ति चाशांसि वा-
तजा गदाः ॥ ३२ ॥

उत्तम १०० पल लशुनको लेकर एक द्रोण जलमे पकावे । जब पकते २ जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेवे । फिर इस काथको एक उत्तम तांबेके पात्रमे डालकर चूल्हेके ऊपर रखे और उसमें अंडीका तेल १ आठकपरिमाण, तथा त्रिकुटा, त्रिकला, दती, हीग, सैधानमक, चीता, देवदारु, वच, कूठ, लालसहिजना, पुनर्नवा, कालानमक, वायविडंग, अजवायन और गजपीपल ये प्रत्येक औषधि चार चार तोले और निसोत २ तोले, इन सबको उसी काथमे पीसकर डाले और विधिपूर्वक धीरे २ मंद २ अग्निसे पकावे । प्रातःकाल उठकर इसमेसे अग्निके बलानुसार सेवन करे । यह तैल-सर्वप्रकारके रोग, विशेष कर उदररोग, मूत्रकृच्छ्र, उदावर्त, अन्त्रवृद्धि, गुदजकृमि, पार्श्वशूल, कुक्षिशूल, आमशूल, अरुचि, यकृत, अष्टीलिका, आनाह, प्लीहा, अगोवेदना और एकमहीनेमे वातज बवासीरको दूर कर देता है ॥२६-३२॥

पित्तोदरनिदान ।

पित्तोदरे ज्वरो मूर्च्छा दाहस्तृट् क-
टुकास्यता । भ्रमोऽतिसारः पीतत्वं
त्वगादाबुदरं हरित् ॥ ३३ ॥ पीत-
ताम्रशिरानद्धं सस्वेदं सोष्म दह्यते ।
धूमायति मृदुस्पर्श क्षिप्रपाकं प्रदू-
यते ॥ ३४ ॥

पित्तोदररोगमे ज्वर, मूर्च्छा, दाह, तृषा, मुखमे कड़वापन, भ्रम, अतिसार, त्वचाआदिका रंग पीला हो

जाना, उदरका रंग हरा हो, पीली और लाल नसोंमे व्याप्त हो, पसोना ओत्र, गरमीसे पेटमे दाह हो, आ-
तोंमें धुआमा निकले, हाथोंके छनेमे नरम मालूम हो, शीघ्र पके और दुरे यह पित्तोदरके लक्षण जा-
नने ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

पित्तोदरकी चिकित्सा ।

पित्तोदरे तु बलिनं पृथमेव विरेच-
येत् । दुर्बलन्त्वनुवास्यादां शोधये-
त्क्षीरवस्तिना ॥ ३५ ॥ सञ्जातबल-
कायाग्निं जातस्निग्धं विरेचयेत् ।
त्रिवृत्कल्केन पयसा रुबुकस्य शृते-
न वा । सातलात्रायमाणाभ्यां कृ-
तेनारग्वधेन च ॥ ३६ ॥ घृतं पि-
त्तोदरे देयं मधुरौषधसाधितम् ।

पित्तोदररोगमे रोगी यदि बलवान् हो तो प्रथम उसको जुलाव देवे और जो रोगी बलवान् नहीं हो तो अनुवासनवस्ति देकर क्षीरवस्तिसे शुद्ध करे । तथा जरूरमे अग्नि और बलके होनेपर स्निग्धविरेचन देवे । निसोतके कल्कको दूधमें अथवा अंडके काथको दूधमे या सातला अथवा त्रायमाण किंवा अमलता-सके द्वारा दूधको पकाकर देवे । तथा मधुर औषधि-योंके द्वारा घृतको सिद्ध करके देवे ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

स्यात्रिवृत्त्रिफलासिद्धं पश्चात्सर्पिर्वि-
शोधनम् ॥ ३७ ॥ न्यग्रोधादिकषाये-
ण सर्पिः क्षौद्रसितायुतम् । आस्था-
पनं प्रयोक्तव्यं स्नेहवस्तिसमन्वितम् ।
सार्द्रपायससिद्धेन कर्त्तव्यमुपनाह-
नम् ॥ ३८ ॥

निसोत और त्रिफलेके काथके द्वारा घृतको सिद्ध करके देवे, जब अच्छेप्रकारसे विरेचन होजाय तब न्यग्रोधादि औषधियोंके काथके द्वारा घृतको सिद्ध कर उसमे शहद और मिश्री मिलाकर उसके द्वारा आस्थापन और स्नेहवस्ति प्रयोग करे । अथवा उप-रोक्त औषधियोंके द्वारा उत्तम दूधकी पतली खीर बनाकर उसके द्वारा उपनाहकर्म करे ॥३७॥३८॥

स्थिरादिसाधितं तैलं क्षीरञ्च प्राशने
हितम् । पञ्चमूलीशृतं क्षीरं पित्तोद-
रविनाशनम् ॥ ३९ ॥

अथवा स्थिरादि गणकी औषधियोंके द्वारा तैलको
पकाकर वा दूधको पकाकर पान करें । पंचमूलकी
औषधियोंके द्वारा दूधको पकाकर सेवन करनेसे पित्तो-
दररोग दूर होता है ॥ ३९ ॥

पृष्टपर्णीचलाव्याघ्रीलाक्षानांगरसाधि-
तम् । क्षीरं पित्तोदरं हन्ति इति
पित्तोदरे क्रिया ॥ ४० ॥

पृष्टिनपर्णी, खिरँटी, कटेरी, लाख और सांठ इनके
द्वारा दूधको पकाकर भेवन करनेसे पित्तोदर रोग
दूर होता है ॥ ४० ॥

कफोदरनिदान ।

श्लेष्मोदरेऽङ्गसदनं स्वापं श्वयथुगौर-
वम् । निद्रोत्केशरुचिः श्वासः कासः
शुक्लत्वगादिता ॥ ४१ ॥ उदरं स्ति-
मितं स्निग्धं शुक्लराजीतं महत् ।
शिराभिवृद्धिकठिनं शीतस्पर्शं गुरु
स्थिरम् ॥ ४२ ॥

कफोदरमे—अंगोंका दृटना और शून्यता, सूजन,
गुरुता, निद्राकी अधिकता, उबकाई होनेकेसी इच्छा,
अमीच, श्वास, खोंसी, त्वचादिका रगमफेद होना,
पेट भीजासा मालूम होना, चिकना, सफेद, नसोमे
व्याप्त हो बड़ी २ शिराओंकी वृद्धि हो, कठिन, हाथके
छूनेसे शीतल जानपडे तथा भारी और स्थिर होता
है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

कफोदरचिकित्सा ।

श्लेष्मोदरिणन्तु पिप्पल्यादिसिद्धेन
सर्पिषा स्नेहयित्वा स्तुहीक्षीरविपक्वे-
नानुलोम्य च । त्रिकटुकमूत्रतैलप्रगाढेन
मुस्तकादिकाथेनाऽऽस्थापयेद्गुवासा-
येच्च । किट्टसर्षपामलकवीजैश्चोपनाह-

येत् उदरिणं भोजयेच्चैनं त्रिकटुप्रगाढेन
कुलित्थयूषेण पयसा स्वेदयेच्चाभीक्षणम् ।

कफोदररोगीको प्रथम पीपलके कल्कसे सिद्ध
किया हुआ घृत पान कराकर पश्चात् थूहरके दूधसे
पकाये हुए घृतसे अनुलोमन करावे फिर सांठ, मिरच,
पीपल, गोमूत्र, अण्डीका तैल और नागरसोथेका
काथ इनके द्वारा स्थापन और अनुवासनवस्ति देवे ।
लोहेका मल, सरसों, आमलोंके बीज—इन सबको
एकत्र पीस कर उदरपर उपनाह करे । तथा कुलथीके
घृतमे त्रिकुटेका चूर्ण डालकर भोजनके साथ देवे ।
एत्र गरमजलसे बारबार उदरपर सेरु करे ।

व्योषयुक्तं कुलित्थांबु पयो वा भोज-
ने हितम् । गोमूत्रारिष्टपानैश्च चूर्णा-
ऽयस्कृतिभिस्तथा । सक्षीरतैलपा-
नैश्च शमयेत्तु कफोदरम् ॥ ४३ ॥

कुलथीके काथमे त्रिकुटेका चूर्ण डाल कर भोजन
अथवा पानमे देवे । गोमूत्र और अरिष्ट इनमे आय-
सादि चूर्ण डाल कर पान करे अथवा दूधमे अण्डीका
तैल डाल कर पान करनेसे कफोदररोग शमन होता
है ॥ ४३ ॥

सन्निपातोदरनिदान ।

ध्वियोऽन्नपानं नखरोममूत्रविडार्त्तवै-
र्युक्तमसाधुवृत्ताः । यस्मै प्रयच्छन्त्य-
रयो गरांश्च दुष्टांबुदूषी विषसेवना-
द्वा ॥ ४४ ॥ तेनाशु रक्तं कुपिताश्च
दोषाः कुरुः सुधोरं जठरं त्रिलिङ्ग-
म् ॥ ४५ ॥ तच्छीतवाते भृशदुर्दिने
च विशेषतः कुप्यति दह्यते च । स
चातुरो मूर्च्छति हि प्रसक्तं पांडुः
कृशः शुष्यति तृष्णया च । दूष्योदरं
कीर्तितमेतदेव ह्रीहोदरं कीर्त्तर्यतो
निबोध ॥ ४६ ॥

जिस मनुष्यको दुष्टर्षी वशमे करनेके लिये नख,
वाल, मूत्र, मल अथवा आर्तव (रजोधर्मका रुधिर)
मिश्रित अन्न पान भक्षण करादेवे अथवा जिसको शत्रु-
सयोगज दूषीविष देवे, या जो मनुष्य दुष्टजल
(सिवार, काई, पत्ते संयुक्त पानी) पीते है, अथवा

जो मनुष्य विष खेवन करते है उनके उपर्युक्त कारणोंसे रक्त और दोष कुपित होकर अत्यन्त दारुण और त्रिदोषज उदररोगको उत्पन्न करते हैं। वह उदररोग शीतकालमें या शीतपवनके चलनेके समय अथवा जिस दिन वर्षाकी झड़ी लग रही हो उस समयमें विग्रेष कर कुपित होता है। इस रोगके शरीरमें दाह हो, निरन्तर मूर्च्छा रहे, शरीरका रंग पीला पड जाय, कृश होजाय, तृषा करके सूखता जाय इसको दूष्योदर भी कहते है। आगे प्लीहोदरको कहते है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥

चिकित्सा ।

सन्निपातोदरे कार्य्य एष एव क्रिया-
क्रमः । रोहीतकाऽभयाकल्कं गोमू-
त्रेण विभावितम् । पीतं सर्वोदरप्लीह-
मेहार्शःकृमिगुल्मनुत् ॥ ४७ ॥

सन्निपातोदरकी इसीप्रकार चिकित्सा करनी चाहिये । रोहेड़ा और हरड इनको गोमूत्रमें पीसकर पान करनेसे सर्वप्रकारके उदररोग, प्लीहा, प्रमेह, ववासीर, कृमि और गुल्मरोग नष्ट होते है ॥ ४७ ॥

सप्तलाशङ्गिनीसिद्धं घृतं चात्र वि-
शोधनम् । दन्तीद्रवन्तीफलजं तैलं
दूष्योदरे पिबेत् ॥ ४८ ॥

सन्निपातोदररोगवालेको सातला और शंखपुष्पीके कल्कके द्वारा घृतको पकाकर देव, इससे रेचन होता है। अथवा दन्ती और द्रवन्तीके फलोकातेल पान करनेसे दूष्योदररोग दूर होता है ॥ ४८ ॥

नागराद्ययमक ।

नागरं त्रिफलाप्रस्थं घृततैलं तथाठ-
कम् । मस्तुना साधयित्वा तु पिबे-
त्सर्वोदरापहम् ॥ ४९ ॥ कफमारुत-
सम्भूते गुल्मे चैव प्रशस्यते ॥ ५० ॥

सोठ और त्रिफलेके कल्कके द्वारा एक प्रस्थ तेल और घृतको एक आठक दहीके पानीमें पकावे इसको पान करनेसे सर्वप्रकारका उदररोग, कफवातजनित गुल्मरोग नष्ट होता है ॥ ४९ ॥ ५० ॥

अत ऊर्ध्वं निगद्यन्ते सामान्या यो-
गसम्मताः । दोषैः कुक्षौ हि संपूर्णे व-

द्विर्मन्दत्वमिच्छति ॥ ५१ ॥ तस्मा-
द्योज्यानि पेयानि दीपनानि लघूनि
च । शालिपष्टिकगोधूमयवनीवार-
भोजनम् । विरेकास्थापनं श्रेष्ठं सर्वे-
षु जठरेषु च ॥ ५२ ॥

अब इसके उपरान्त सामान्ययोगोंको कहते हैं । वातादि तीनों दोष उदरमें प्राप्त होकर अग्निकी मंदताको करते हैं । इस कारण इसमें दीपन और हलके ऐसे पदार्थोंकी पेया प्रयोग करनी चाहिए । शालिचावल, साँठीचावल, गेहूँ, जौ और नीवारधान इनका भोजन, विरेचन और स्थापनवस्ति ये सब उदररोगमें हितकारी है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥

उदकानूपजं मांसं शाकं पिष्टकृतं
तिलान् ॥ ५३ ॥ व्यायामाध्वादिवा-
स्वप्रयानपानं विवर्जयेत् । तथोष्णल-
वणाम्लानि विदाहीनि गुरूणि च ॥
॥ ५४ ॥ नाद्यादन्नानि जठरे तोय-
पानं विवर्जयेत् । उदरिणां मलाढ्य-
त्वाद्बहुशः शोधनं मतम् ॥ ५५ ॥

हलचरजीवोंका मांस, अनूपप्रदेशके जीवोंका मांस, शाक, तिलोंकी पिट्टी, दड, कसरत आदि परिश्रम, मार्गका चलना, दिनमें सोना, हाथी घोड़ेकी सवारी और पानीय पदार्थ—इन सबको उदररोगी त्याग देवे। तथा गरम, लवणके पदार्थ, खट्टे पदार्थ, दाहकारक और भारी ऐसे अन्न और जल इन सबको उदररोगी त्यागदेवे। प्रायः उदररोगियोंके विशेषकर मलकी वृद्धता होजाती है इस कारण उदर रोगमें वारंवार विरेचन देना चाहिए ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥

क्षीरेणैरण्डजं तैलं पिबेन्मूत्रेण वै स-
कृत । ज्योतिष्मत्या पिबेत्तैलं पयसा
वा दिनाष्टकम् ॥ ५६ ॥

अंडीके तेलमें दूध डालकर गोमूत्रके साथ एकवार पान करनेसे उदररोग नष्ट होता है। अथवा मालकागुनीके तेलको दूधके साथ आठदिन तक पान करनेसे सर्वप्रकारका उदररोग दूर होता है ॥ ५६ ॥

कंकुष्टचूर्णं मुस्तांबुपीतं संसेव्य मान-
वः । अष्टभ्योऽप्युदरेभ्यश्च द्रुतं कु-
र्यान्नवृत्तिकाम् ॥ ५७ ॥

कंकुष्टके चूर्णको नागरसोथेके क्वाथमे डाल कर पान करनेसे आठों प्रकारका उदररोग दूर होता है ॥ ५७ ॥

स्तुहीपयो भावितानां पिप्पलीनां प-
योशनः । सहस्रमुपयुञ्जीत शक्तितो
जठरामयी ॥ ५८ ॥

थूहरके दूधमें पीपलोको भावना देकर अपनी शक्तिके अनुसार एक सहस्रपर्यंत सेवन करे तो सर्व-प्रकारका उदररोग दूर होता है ॥ ५८ ॥

वातोदरी पिबेत्तक्रं पिप्पलीलवणा-
न्वितम् । शर्करामरिचोपेतं स्वाडु
पित्तोदरी पिबेत् ॥ ५९ ॥

पीपल और सैधानमकका तक्रमे डाल कर वातोदर रोगमें पान करे । मिश्री और काली मिरचको तक्रमे डाल कर स्वादिष्ट करके पित्तोदररोगीको पिलाना चाहिए ॥ ५९ ॥

यवानीहपुषाजाजीव्योषयुक्तं कफो-
दरी । सन्निपातोदरी क्षिप्रं त्रिकटुक्षा-
रसैन्धवैः ॥ ६० ॥ बद्धोदरी च हपुषा-
दौष्यकाजाजिसैन्धवैः । पिबेच्छिद्रो-
दरी तक्रं पिप्पलीक्षौद्रसंयुतम् ॥
स्पृणक्षारलवणैर्युक्तन्तु निचर्योद-
री ॥ ६१ ॥

कफोदररोगीको तक्रमे अजवायन, हाऊवेर, जीरा और त्रिकुटेका चूर्ण डाल कर पान करावे । सन्निपा-तोदररोगमें त्रिकुटा, जवाखार और सैधानमक डाल कर पान करावे । बद्धोदररोगीको तक्रमे हाऊवेर, अजवायन, जीरा और सैधानमकका चूर्ण डाल कर पान करावे, छिद्रोदररोगीको तक्रमे पीपलका चूर्ण और गहद डाल कर पान करावे । बद्धोदररोगीको त्रिकुटेका चूर्ण, जवाखार और सैधानमक मिला कर तक्र पान करावे ॥ ६० ॥ ६१ ॥

शिलाजतूनां मूत्राणां गुग्गुलोत्त्रि-
फलस्य च । स्तुहीक्षीरप्रयोगश्च श-
मयत्युदरामयम् ॥ ६२ ॥

शिलाजीतको गोमूत्रमे डाल कर पान करनेसे अथवा गुग्गुलको त्रिफलेके क्वाथमें डाल कर पान करनेसे अथवा इनको थूहरके दूधके साथ पान करनेसे सर्व प्रकारके उदररोग दूर होते हैं ॥ ६२ ॥

पूतीकरञ्जबीजं मूलकबीजं गवादनी-
मूलम् । शंखभस्म च काञ्जिकपीतं
शमयेज्जलोदरमपि ॥ ६३ ॥

दुर्गव करजके बीज, मूलीके बीज, गरहेडुएकी जड़ और शंखकी भस्म—इन सबको एकत्र काँजीके साथ पान करनेसे जलोदररोग भी दूर होता है ६३ ॥

कलिंगबीजशाणश्च शाणष्टङ्कणहिं-
गुनोः । शंखशाणसमायुक्तं षड् वा
पिप्पलिमाषकाः ॥ ६४ ॥ गोमूत्रेण
तु सम्पेष्य पीतं शमयाति द्रुतम् । उ-
दराणि च सर्वाणि चिरजातोदका-
न्यपि ॥ ६५ ॥

इन्द्रजौ ४ माशे, सुहागा और हींग चार चार माशे, शंखकी भस्म ४ माशे और पीपल ६ माशे, इन सबको एकत्र गोमूत्रके साथ पीस कर पान करनेसे गीत्र ही सर्व प्रकारके उदररोग और बहुत दिनोंका पुराना जलोदर नष्ट होता है ॥ ६४ ॥ ६५ ॥

सप्ताहं माहिषं मूत्रं पयसाऽत्रांबुवर्जि-
तम् । पीतमौष्ट्रमजामूत्रं श्वयथूदरना-
शनम् ॥ ६६ ॥

गोथोदरमें केवल सात दिनतक भैसके मूत्रको दूधके साथ पान करे और इसपर अन्न और जलका त्याग कर देवे । अथवा ऊंटनीके या चकरीके मूत्रको पान करनेसे गोथोदररोग दूर होता है ॥ ६६ ॥

यः पिबेत्प्रातरुत्थाय चव्यचित्रकमि-
श्रितम् । क्षिप्रं तस्य जयेदौष्ट्रमसा-
ध्यमपि चोदरम् ॥ ६७ ॥

यः पिबेत्प्रातरुत्थाय चव्यचित्रकमि-श्रितम् । क्षिप्रं तस्य जयेदौष्ट्रमसाध्यमपि चोदरम् ॥ ६७ ॥

जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर चव्य और चीतेके चूर्णको ऊँटके मूत्रके साथ पान करता है उसका असाध्य उदररोग भी अवश्य नष्ट होजाता है ॥ ६७ ॥

विशाला शंखिनी दन्ती त्रिवृत्रीली
फलत्रयम् । निशाविडङ्गकंपिष्टं मूत्रे-
णोदरवान्पिबेत् ॥ ६८ ॥

इन्द्रायन, शंखपुष्पी, दन्ती, निसोत, नीली वृक्ष, त्रिफला, हलदी, वायाविडंग और कबीला इनको गोमूत्रके साथ पान करनेसे उदररोग नष्ट होता है ६८

पेयं वा चव्यदन्त्यग्निविडङ्गं व्योषक-
लिकतम् । पेयो वा शृङ्गवेराम्बुकषा-
यो दाहूर्वाह्विजः । चव्यविश्वसमुत्थो
वा पेयो जठरशान्तये ॥ ६९ ॥

अथवा चव्य, दती, चीता, वायाविडंग और त्रिकुटा इनके चूर्णको गोमूत्रके साथ पान करनेसे उदररोग नष्ट होता है वा अदरख, देवदारु और चीतेके काथको पान करनेसे उदररोग नष्ट होता है । या चव्य और सोठ इनको एकत्र पीस कर गोमूत्रके साथ पान करनेसे उदररोग दूर होता है ॥ ६९ ॥

क्षारद्रयानलव्योषनीलीलवणपञ्चक-
म् । चूर्णितं सर्पिषा पेयं सर्वगुल्मो-
दरापहम् ॥ ७० ॥

जवाखार, सज्जी, चीता, त्रिकुटा, नीली, पांचो नमक इन सबको एकत्र पीस कर वारीक चूर्ण करके घीमें मिला कर सेवन करनेसे सर्व प्रकारका गुल्म और उदररोग दूर होता है ॥ ७० ॥

विडंगं चित्रकं दन्ती चव्यं व्योषश्च
तत्पयः । कल्कैः कोलसभैः पीत्वा
प्रवृद्धमुदरं जयेत् ॥ ७१ ॥

वायाविडंग, चीता, दन्ती, चव्य और त्रिकुटा इन सबको एकत्र जलमे पीस कर एक तोला प्रमाण सेवन करनेसे अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त हुआ उदररोग दूर होता है ॥ ७१ ॥

गवाक्षीशंखिनीदन्तीनीलिनीकल्क-
संयुतम् । सर्वोदरविनाशाय गोमूत्र-
पानमाचरेत् ॥ ७२ ॥

इन्द्रायन, शंखाहुली, दन्ती और नीली इनका कल्क बना कर गोमूत्रके साथ पान करनेसे सर्व प्रकारका उदररोग दूर होता है ॥ ७२ ॥

देवद्रुमं शिशु च पूरकश्च गोमूत्रपिष्टा-
मथवाश्वगन्धाम् । पीत्वाशु हन्या-
जठरं प्रवृद्धं कृमीन्सशोथानुदरश्च
दुष्यम् ॥ ७३ ॥

देवदारु, साहिजना और विजौरानिवू इनको गोमूत्रमें पीस कर अथवा केवल असंगंधको गोमूत्रमें पीस कर पान करनेसे बढाहुआ उदररोग, कृमि और शोथसंयुक्त तथा त्रिदोषजनित उदररोग दूर होता है ७३

पिप्पलीवर्द्धमानं वा कल्योदिष्टं प्र-
योजयेत् । जठराणां विनाशाय ना-
स्ति तेन समं भुवि ॥ ७४ ॥

अथ ॥ वर्द्धमानपीपलको यथोक्त विधिसे प्रयोग करे, क्योंकि इस वर्द्धमानपीपलके समान उदररोगकी संसारमे अन्य औषधि नहीं है ॥ ७४ ॥

स्तुक्पयसा परिभावितस्तंडुलचूर्णे-
निर्मितः पूषः । उदरमुदारं हन्याद्यो-
गोऽयं सप्तरत्रेण ॥ ७५ ॥

चावलोंके चूनको थूहरके दूधमे भावना देकर उसके मालपूए बनावे । इन पूओको सेवन करनेसे सात दिनमें अत्यन्त बढा हुआ भी उदररोग दूर होता है ॥ ७५ ॥

बबूलस्य त्वचं श्रेष्ठां काथयेत्सलि-
लेन तु । पुनः पचेत्कषायन्तु याव-
त्सान्द्रत्वमागतम् ॥ ७६ ॥ तत्पिबे-
त्तक्रसंयुक्तं तक्रभोजी मिताशनः ।
निहन्यादाशु योगोऽयं जलोदरमपि
ध्रुवम् ॥ ७७ ॥

उत्तम बबूरकी छालको लेकर जलमे पकावे । जब पककर अच्छे प्रकारसे काथ होजाय तब उतार कर छान लेवे । फिर दुबारा चूहेपर चढा कर पकावे । जब पकते २ खूब गाढा अवलेहके समान होजाय तब उसको उतार कर शीतल होनेपर उसमे तक्र (छोल) मिला कर पान करे और उसपर तक्रके साथ ही भोजन करे तो यह उत्तम योग जलोदर रोगको भी निश्चय दूर कर देता है ॥ ७६ ॥ ७७ ॥

मूत्राण्यष्टाबुदरिणां सेके पाने च
योजयेत् । पिप्पलविद्धमानं वा पय-
सैव प्रयोजयेत् ॥ ७८ ॥

आठों प्रकारके उदररोगोंमें सर्वप्रकारके मूत्र सीचने
और पीनीमें प्रयोग करने चाहिए । अथवा वर्द्धमान-
पीपलको दूधके साथ सेवन करना चाहिए ॥ ७८ ॥

देवदारुपलाशार्कहस्तिपिप्पालिशि-
शुभिः । साश्वगन्धैः सगोमूत्रैः प्रदि-
ह्याबुदरं शनैः ॥ ७९ ॥

देवदारु, ढाक, आक, गजपीपल, सहिजना और
असगंध इनको गोमूत्रसे पीसकर धीरे २ उदरपर
प्रलेप करे ॥ ७९ ॥

पटोलादिचूर्ण ।

पटोलपत्रं रजनी विडङ्गं त्रिफलात्व-
चम् । कम्पिल्लकं नीलिनी च त्रिवृ-
तं चेति चूर्णयेत् ॥ ८० ॥ षडाद्या-
न्कार्षिकानन्त्यांस्त्रींश्च द्वित्रिचतुर्गु-
णान् । कृत्वा चूर्णं ततो मुष्टिं गवां
मूत्रेण वा पिबेत् ॥ ८१ ॥ विरिक्तो
जाङ्गलरसैरोदनं मृदु भोजयेत् । म-
ण्डं पेयाश्च पीत्वा वा सव्योषं षडहं
पयः ॥ ८२ ॥ शृतं पिबेत्तश्चूर्णं पिबे-
देवं ततः पुनः । हन्ति सर्वादराण्ये-
तच्चूर्णं जातोदकानि च ॥ ८३ ॥ का-
मलां पांडुरोगश्च श्वयथुं वापि कर्ष-
ति ॥ ८४ ॥

पटोलपत्र, हलदी, वायविडंग, हरड, बहेडा और
आमला ये प्रत्येक एक एक तोला, कवीला २ तोले,
नीली ३ तोले और निसोत ४ तोले लेवे । सबको
एकत्र पीसकर चूर्ण करले । इस चूर्णको चार तोले
प्रमाण लेकर गोमूत्रके साथ पान करे । जब विरेचन
(दस्त) होजाय तब जांगलजीवोके मांसके रसके
साथ भात भोजन करे । अथवा मड और पेयाको

पीकर त्रिकुटेके चूर्णको दूधमें औटाकर उस दूधको
छः दिनतक पान करे, फिर उसके पश्चात् उसी क्रमसे
चूर्णको पीकर दूधको पान करे । इस प्रकार वारंवार
सेवन करनेसे सर्व प्रकारके उदररोग, जलोदर,
कामला, पाण्डुरोग और सूजन दूर होती है ॥ ८० ॥
॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥

नारायणचूर्ण ।

यवानीहपुषाधान्यं त्रिफला सोपकु-
श्विका । कारवीपिप्पलीमूलभजग-
न्धा शटो वचा ॥ ८५ ॥ शताह्वाजी-
रकं व्योषं स्वर्णक्षीरी सचित्रकम् ।
द्वौ क्षारौ पौष्करं मूलं कुष्ठं लवणप-
श्चकम् ॥ ८६ ॥ विडङ्गश्च समांशानि
दन्तिभागत्रयं भवेत् । त्रिवृद्विशाले
द्विगुणे सातला स्याच्चतुर्गुणा ॥ ८७ ॥
एष नारायणो नाम्ना चूर्णो रोगग-
णापहः । एनं प्राप्य निवर्तन्ते रोगा
विष्णुमिवासुराः ॥ ८८ ॥ तक्रेणोद-
रिभिः पेयो गुल्मिभिर्बदरांडुना । आ-
नद्धवाते सुरया वातरोगे प्रसन्नया ॥
॥ ८९ ॥ दधिमण्डेन विड्भेदे दाडि-
मांबुभिरर्शासि । परिकर्त्तिषु वृक्षा-
म्लैरुष्णांबुभिरजीर्णके ॥ ९० ॥ भग-
न्दरे पांडुरोगे कासे श्वासे गलग्रहे ।
हृद्रोगे ग्रहणीरोगे कुष्ठे मन्दानले
ज्वरे ॥ ९१ ॥ दंष्ट्राविषे मूलविषे संगरे
कृत्रिमे विषे । यथार्हं स्निग्धकोष्ठेन
पेयमेतद्विरेचनम् ॥ ९२ ॥

अजवायन, हाऊवेर, धनियाँ, त्रिफला, काला
जीरा, कलौजी, सौफ, पीपलामूल, वनतुलसी, कचूर,
वच, सौफ, जीरा, त्रिकुटा, चोफ, चीता, जवाखार,
सजी, पोहकरमूल, कूठ, पांचो नमक और वायवि-
डग ये प्रत्येक औषधि एक एक भाग लेवे, दंती तीन
भाग लेवे, निसोत और इन्द्रायन प्रत्येक दो २ भाग
और सातला चार भाग लेवे । इन सबको एकत्र
पीसकर चूर्ण करले । इसको नारायणचूर्ण कहते हैं ।

यह चूर्ण-रोगोके समूहोंको नष्ट करताहै इस चूर्णको सेवन करनेवाले मनुष्यके कोई रोग उत्पन्न नहीं होता है, जिसप्रकार विष्णुने असुरोके समूहका नाश होता है यह नारायणचूर्ण-उदररोगियोको तक्रके साथ, गुल्मरोगियोको वेरीके काथके साथ, आनन्दवातमें मदिराके साथ, वातरोगमें प्रसन्नानामक मदिराके साथ, मलभेदमें दहीके मांडके साथ, ववासीरमें अनारके रसके साथ, परिकर्तिकामे विपांवि-लनीचूके रसके साथ, अजीर्णरोगमें गरम जलके साथ, तथा भगन्दर, पाण्डुरोग, खँसी, श्वास, गलप्रह, हृदयरोग, संग्रहणीरोग, कोढ, मद्दाग्नि, ज्वर, दृष्टा-विष, मूलविष, खनिजविष, कृत्रिमविष और सर्व-प्रकारके विषोमें यथायोग्य प्रथम स्निग्धकोष्ट करके इस उत्तम विरेचनको देना चाहिए ॥ ८५—९२ ॥

महाक्षार ।

तिलसर्षपनालानि यवनालं सुधाम-
पि । दशमूलमपामार्गं दन्तीं चित्रक-
माढकीम् ॥९३॥ मधुकैमन्त्रीं त्रिवृतां
त्रिफलां करवीरकम् । पुनर्नवां वृश्चि-
कालीमर्ककम्पिप्लुनिम्बकम् ॥ ९४ ॥
एतान्दशपलान्भागान्युक्त्या दग्ध्वा
समावपेत । गोमूत्रे द्रोणसंयुक्ते सप्त-
कृत्वस्तु पाचयेत् ॥ ९५ ॥ वचामति-
विषां पाठां द्वे हरिद्रे महौषधम् ।
त्रिवृत्कम्पिप्लुकं क्षारं तथैव लवणा-
नि च ॥ ९६ ॥ महौषधं शिशुफलं
कुष्ठं भल्लातकानि च । पिप्पलीं च
विडङ्गानि त्रिफलां देवदारु च ॥९७॥
कटुकां रोहिणीं मुस्तं दन्तीं हिंघ-
म्लवेतसम् । दधिशुक्कारनालानामा-
ढकाढकमाचरेत् ॥ ९८ ॥ समांशकेन
भागेन सर्पिस्तैलं विपाचयेत् । विग-
तार्चिर्यथाशान्तमथैतदवतारयेत् ९९
ततो विडालपदकं पिबेदुष्णेन वारि-
णा । रुच्यैरम्लैश्च पानैश्च क्षीरैर्मूत्रेण
वा पुनः ॥ १०० ॥ महाक्षार इति
ख्यातो जठराणां विनाशनः । ग्री-

हान्यशांसि गुल्मानि सशूलं हृदय-
ग्रहम् ॥ १०१ ॥ यक्ष्माणश्च प्रमेहश्च
पाण्डुरोगं भगन्दरम् । सकृमीग्रहणी-
दोषान्ब्रणोदावर्तकुण्डलम् । मूत्रकृ-
च्छ्रमपस्मारं क्षारोऽयं विनिवर्त-
ते ॥ १०२ ॥

तिल और सरसोकी नाल, जौंजी नाल, थूहरका
डंडा, दशमूलकी दश औपधियाँ, चिरचिटा, दती,
चीता, अरहर, महुवा, इन्द्रायन, निसोत, त्रिफला,
कनेर, पुनर्नवा, वृश्चिकाली, आक, कवीला और
नीम ये प्रत्येक औपधि दश दश पल लेकर विधि-
पूर्वक अग्निमें जलालेवे, फिर इनकी भस्मको जलमें
डालकर नितार लेवे । फिर उस क्षारजलको सात
द्रोण गोमूत्रमें डालकर पकावे और उसमें वच,
अतीस, पाढ, हलदी, दाहहलदी, सोठ, निसोत,
कवीला, जवाखार, पाचो नमक, सोठ, सिंहजनकी
जड, कूट, भिलावे, पीपल, वायविडंग, त्रिफला, देव-
दारु, कुटकी, नागरमोथा, दती, हींग और अमल-
वेत इन प्रत्येक औपधिका चूर्ण चार २ तोले, दही,
शुक्तनामवाली काँजी अथवा सिर्का और काँजी ये
प्रत्येक एक २ आढक, घी और तेल यह समान भाग
इन सबको उममें डालकर पकावे । जब पककर
अपने आप अग्नि शांत होकर आप शीतल होजाय
तब उतार लेवे । फिर इसमेंसे एक तोला प्रमाण
लेकर गरम जलके साथ अथवा रुचिकारक और बड़े
ऐसे पानीय पदार्थोंके साथ या दूधके साथ, अथवा
गोमूत्रके साथ सेवन करे । यह महाक्षार—सर्वप्रका-
रके उदररोगोको दूर करनेवाला है । तथा ग्रीहा,
ववासीर, गुल्म, शूल, हृदयरोग, राजयक्ष्मा, प्रमेह
पाण्डुरांग, भगन्दर, कृमि, संग्रहणी, ब्रण, उदावर्त,
मूत्रकृच्छ्र और अपस्मार इन सबको नष्ट करता है
॥ ९३-१०२ ॥

नाराचवृत ।

स्तुकक्षीरदन्तीत्रिफलाविडङ्गसिंही-
त्रिवृच्चित्रककर्षककम् । घृतं विपकं
कुडवप्रमाणं तोयेन तस्याऽक्षसमान-
कर्षम् ॥१०३॥ पीत्वोष्णमंभोनपिबे-

द्विरिक्ते पेयां रसं वा प्रचरेद्विधिज्ञः ।
नाराचमेतज्जठरामयानां युक्त्योप-
जुष्टं समनुप्रदिष्टम् ॥ १०४ ॥

थूहरका दूध, दन्ती, त्रिफला, वायविडंग, कटेरी, त्रिभोज और चीता ये प्रत्येक पदार्थ एक एक तोला प्रमाण लेकर कल्क बनावे । इस कल्कके द्वारा सोलह तोले घीको पकावे तो नाराचघृत मिद्ध होता है । विरेचनके लिये पानीके साथ इस घृतको एक तोला अथवा दो तोलेप्रमाण लेकर पान करे और ऊपरसे गरम जल पीवे । विधिको जाननेवाला पुरुष इस घृतमे विरेचन होनेपर योग्य पेया अथवा योग्य रस पीवे । जिस प्रकार वाण निजानको तोडता है उसी प्रकार युक्तिसे उपयोगमे लाया हुआ यह घी उदरके सब रोगोंको नष्ट कर देता है ॥ १०३ ॥ १०४ ॥

द्वितीय नाराचघृत ।

त्रिफला चित्रकी दन्ती बृहती कण्ट-
कारिका । स्तुहीसार्कविडङ्गानि वृ-
तस्य कुडवं पचेत् ॥ १०५ ॥ तस्य
मृद्भ्रिसिद्धस्य कर्पाई पाययेन्नरः ।
शोधगुल्मोदरानाहर्षाहोदरकफोद-
रान् ॥ १०६ ॥ नाशयत्युल्बणानेता-
न्सर्पिर्नाराचसंज्ञिनम् ॥ १०७ ॥

त्रिफला, चीता, दन्ती, कटेरी, बड़ीकटेरी, थूहर, आक और वायविडंग इन प्रत्येकके एक एक तोला कल्कमे सोलह तोले घृतको मन्द २ अग्निसे पकावे तो यह नाराचघृत मिद्ध होता है । इस घृतमेसे आधा तोला लेकर सेवन करे । यह नाराचघृत-सूजन, गुल्म, उदररोग, आनाह, घ्रीहोदर, कफोदर और सर्व प्रकारके बड़े हुए उदररोगोंको नष्ट कर देता है ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ १०७ ॥

त्रिवृतादिवृत ।

पयस्यष्टगुणे सर्पिः प्रस्थं स्तुक्पयसः
पलम् । त्रिवृतापलषट्केन सिद्धं जठ-
रगुल्मनुत् ॥ १०८ ॥

दूध ८ प्रस्थ, घी १ प्रस्थ, थूहरका दूध ४ तोले और त्रिभोजका कल्क २४ तोले, इन सबको एकत्र करके

उत्तम विधिसे घृतको सिद्ध करे । यह घृत-सर्व प्रकारके उदररोग और गुल्मरोगको नष्ट करता है ॥ १०८ ॥

विन्दुघृत ।

अर्कक्षीरपले द्वे तु स्तुहीक्षीरपलानि
पट् । पथ्या कम्पिप्लकं श्यामा शम्या-
कगिरिकर्णिका ॥ १०९ ॥ नीलिनी
त्रिवृता दन्ती शङ्खिनी चित्रकं तथा ।
एतेषां पलिकैर्भागैर्वृतप्रस्थं विपाच-
येत् ॥ ११० ॥ अथास्य मलिने को-
ष्ठे विन्दुमात्रं प्रदापयेत् । यावत्तस्य
पिबेद्विन्दूंस्तावद्वेगाद्विरिच्यते ॥ १११ ॥
कुष्ठं गुल्ममुदावर्तं श्वयथुं सभगन्दर-
म् । शमयत्युदराण्यष्टौ वृक्षामिन्द्रा-
शनिर्यथा । एतद्विन्दुघृतं नाम येना-
भ्यक्तो विरिच्यते ॥ ११२ ॥

आकका दूध ८ तोले, थूहरका दूध २४ तोले, हरड, कवीला, पीपल, अमलतास, सफेद अपराजिता, नीली, त्रिभोज, दन्ती, जखपुष्पी और चीता यह प्रत्येक औषधि चार चार तोले-इन्हे कल्कके द्वारा एक प्रस्थ घृतको पकावे । इस घृतमेसे एक विन्दुमात्र लेकर मालिनकोष्ठवाले मनुष्योंको देवे । इस घृतकी जि-तनी घूँद पान करे उतनीही वार दस्त होंगे । यह वि-न्दुघृत-कोष्ठ, गुल्म, उदावर्त, सूजन, भगन्दर और आठों प्रकारके उदर रोगोंको नष्ट करता है । इस विन्दुघृतको पेट पर मालिश करनेसे भी दस्त होने लगते हैं ॥ १०९ ॥ ११० ॥ १११ ॥ ११२ ॥

शालिपर्णी तैल ।

शालिपर्णी विदारी च सहदेवा स-
गोक्षुरा । उभे स्थिरे शारिवे च जी-
वकर्षभकावुभौ ॥ ११३ ॥ पर्णिन्यौ च
विशाला च रुडूको वृद्धिरेव च ।
कण्डूरा त्वक् सुपत्री च फलत्रयमथापि
त्रा ॥ ११४ ॥ एषां चतुर्दशपलं मा-
नतः सर्वसंयुतम् । पुनर्नवैरण्डयोश्च

फलमेकं पृथक्पृथक् ॥ ११५ ॥ षोड-
शांशसमाख्यातं दशमूल्याश्च विंश-
तिम् । संकुटय कथिते द्रोणे जले पा-
दावशेषिके ॥ ११६ ॥ दधिकाञ्जि-
कमूत्राणां प्रस्थं प्रस्थं चतुश्चतुः । तै-
लभैरंडजं चैव प्रस्थमेकं समाचरेत् ॥
॥ ११७ ॥ सार्द्धैर्कर्मप्रमाणां तां मा-
त्रां वैद्यस्तु दापयेत् ॥ ११८ ॥ पला-
शपुष्पीधवचित्रकाणां स्नुहीद्रुमत्व-
ङ्गमदनारग्वधानाम् । फलत्रिकस्या-
पि तथैव दद्यात्क्षारस्य लोध्रस्य पलं
तथैव ॥ ११९ ॥ पयः स्नुहायाश्च प-
लश्चतुष्कं येषां च कल्केन पचेद्विधि-
ज्ञः । क्षरिण तद्वै पिबतश्च जन्तोः स-
र्वोदरं तैलवरं निहन्ति ॥ १२० ॥

शालिपर्णी, विदारीकंद, दंडोत्पल, गोखुरु, शाल-
पर्णी, पृष्टपर्णी, आरिवा, जीवक, ऋषभक, मुद्गपर्णी,
मापपर्णी, इन्द्रायन, अंडकी जड, वृद्धि, द्विगुपत्री और
त्रिफला ये सब औषधि चौदह पल लेवे, पुनर्नवा और
अंड ये प्रत्येक पृथक् २ चार चार तोले लेवे और
दशमूलकी औषधिया २० पल लेवे । इन सबको कूट
कर एक द्रोण जलमें पकावे । जब पकते पकते जल
चौथाई भाग जपरह जाय तब उतार कर छान लेवे ।
फिर इस काथमें ठही, काजी और गौमूत्र ये प्रत्येक
द्रव्य चार चार प्रस्थ और अंडीका तेल १ प्रस्थ
तथा कल्कके लिये नाडीहीग, धौ, चीता, थूहरकी
छाल, मैनफल, अर्मलतास, त्रिफला, जंवाखार और
लोध्र यह प्रत्येक चार २ तोले और थूहरका दूध
१६ तोले इन सबका कल्क डाल कर उत्तम विधिसे
धीरे २ तेलको पकावे । इसको डेढ २ तोलेकी मात्रासे
दूधके साथ पान करे यह शालिपर्णतैल सर्वप्रकारके
उदररोगोंको दूर करता है ॥ ११३-१२० ॥

प्लीहोदरनिदान ।

विदाह्यभिष्यन्दिरतस्य जन्तोः प्रदु-
ष्टमत्यर्थमसृक्कफश्च । प्लीहाभिवृद्धिं
कुरुतः प्रवृद्धौ प्लीहोत्थमेतज्जठरं च-

दन्ति ॥ १२१ ॥ तद्दामपाश्वे परि-
वृद्धिमेति विशेषतः सीदति चातु-
रोऽत्र ॥ १२२ ॥ प्लीहानिर्वेदनः श्वे-
तः कठिनः स्थूल एव च । महापरि-
ग्रहः शान्तः श्लेष्मसम्भव उच्यते ॥
॥ १२३ ॥ सज्वरः सपिपासश्च स्वेद-
नस्तीव्रवेदनः । पीतगात्रो विशेषेण
प्लीहा पैत्तिक उच्यते ॥ १२४ ॥

दाहकारक और अभिष्यन्दी द्रव्य भोजन करने-
वाले मनुष्योंके रुधिर और कफ अत्यन्त दूषित हो-
कर उदरके वामपार्श्वमें प्लीहाको बढा कर शरीरमें
अत्यन्त वेदनाको उत्पन्न करते है इसीको प्लीहोदर
कहते है । इसमें रोगी अत्यन्त दुःखी होता है ।
कफजप्लीहामें पीडा रहित, शरिरका वर्ण श्वेत, प्लीहा
अत्यन्त कठिन, मोटी, बहुत भारी और शांत होती
है । पित्तजप्लीहामें ज्वर, पिपासा, पसीनेका अधिक
आना, तीव्र पीडा और विशेष करके शरीरका रंग
पीला होता है ॥ १२१ ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ १२४ ॥

नित्यमाबद्धकोष्ठश्च नित्योदावर्तपी-
डितः । वेदनाभिः परीतश्च प्लीहा
वातिक उच्यते ॥ १२५ ॥

वातजप्लीहारोगमें नित्य कोष्ठबद्धता, नित्य उदा-
वर्तकी पीडा और विशेष पीडाका होना ये सब
लक्षण होते है ॥ १२५ ॥

कलमो विदाहः संमोहो वैवर्ण्यं गात्र-
गौरवम् । उत्क्लेदभ्रममूर्च्छाभिर्ज्ञेयं
रक्तस्य लक्षणम् ॥ १२६ ॥

रुधिरजनितप्लीहामें-ग्लानि, दाह, मोह, विवर्ण-
ता, शरीरमें भारीपन, उबकाई भ्रम और मूर्च्छा ये
सब लक्षण होते है ॥ १२६ ॥

त्रयाणामपि रूपाणि प्लीहासाध्यो भ-
वन्ति हि ॥ १२७ ॥

और जिसमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हों उस-
को त्रिदोषजप्लीहा कहते है । त्रिदोषजप्लीहारोग असा-
ध्य है ॥ १२७ ॥

प्लीहोदरकी चिकित्सा ।

स्नेहस्वेदविरेकादि विधेयं प्लीहरोगि
णे ॥ १२८ ॥ दध्ना भुक्तवतो वाम-
बाहुमध्ये शिरां भिषक् । विध्येत्प्ली-
हविनाशाय यकृन्नाशाय दक्षिणे ।
प्लीहानं मर्दयेद्द्राढं दुष्टरक्तप्रशान्तये
॥ १२९ ॥ मणिवन्धे समुत्पन्नं वाम-
मंगुष्ठमीरितम् । दहेच्छिरां क्षरेणाशु
वैद्यः प्लीहप्रशान्तये ॥ १३० ॥

प्लीहारोगीके लिए प्रथम स्नेहन, स्वेदन और रेच-
न इत्यादि विधि करनी चाहिए । तथा प्लीहाको नाश
करनेके लिये प्रथम दहीको खिलाकर बाँये बाहुमध्य-
की शिराको वेधे और यकृतको नष्ट करनेके लिये
दहने बाहुमध्य शिराको वेधे और दुष्टरुधिरकी शा-
तिके लिये प्लीहाको अच्छे प्रकारसे मर्दन करे अथवा
बाँये हाथके पहुँचमें अँगूठेकी शिराको दग्ध करे तो
शीघ्रही प्लीहा शान्त होती है ॥ १२८ ॥ १२९ ॥
॥ १३० ॥

विडङ्गाढ्यान्ससिन्धूत्यान्सक्तून्कृत्वा
वचान्वितान् । पिबेत्क्षीरेण संचूर्ण्य
प्लीहगुल्मोदरापहम् ॥ १३१ ॥

वायविडग, सैधानमक, सत्तु और वच इन सबको
एकत्र जलमें पीसकर दूधके साथ पान करनेसे प्लीहा,
गुल्म और उदररोग दूर होता है ॥ १३१ ॥

सिन्धुमगधाग्निचूर्णं शिशुशिवाऽऽम-
लकीरसनिपीतञ्च । प्रबलमपि यो-
गराजः प्लीहानं नाशयत्याशु ॥ १३२ ॥

सैधानमक, पीपल और चीता इनके चूर्णको
सर्हिजना, हरड और आमलेके रसके साथ पान
करनेसे अत्यन्त बड़ीहुई प्लीहा भी शीघ्र नष्ट होती
है ॥ १३२ ॥

तिलैरण्डद्रवस्तस्य क्षारो भ्रष्टातकं
कणा । एषां भागं समं कृत्वा तत्तु-
ल्यन्तु गुडं मतम् ॥ १३३ ॥ खादेद-
ग्निबलं मत्वा प्रावकस्य विवृद्धये ।
जयेत्प्लीहानमत्युग्रं यकृद्गुल्मं तथैव
च ॥ १३४ ॥

तिल और अंडीका खार, भिलावे और पीपल ये
सब समान भाग और सबके बराबर गुड लेवे ।
सबको एकत्र मिलाकर अग्निको दीपन करनेके लिये
अपनी अग्निके बलानुसार भक्षण करे । इससे अत्य-
न्त उग्र प्लीहा, यकृत और गुल्म नष्ट होता है ॥
॥ १३३ ॥ १३४ ॥

अम्लवेतससंयुक्तः शिशुकाथः ससै-
न्धवः । पीतः प्लीहोदरं हन्ति पि-
प्पलीमीरिचान्वितः ॥ १३५ ॥

सर्हिजनेके काथमे अमलवेत, सैधानमक, पीपल
और कालीमिरिच इनका चूर्ण डालकर पान करनेसे
प्लीहोदररोग दूर होता है ॥ १३५ ॥

कुष्ठं वचा शृङ्गवेरं चित्रकं कौटजं फ-
लम् । पाठा चैवाजमोदा च पिप्पलयः
समचूर्णिताः ॥ १३६ ॥ ततो विडा-
लपदकं पिबेदुष्णेन वारिणा । प्लीहो-
दरमुदावर्त्त सर्वमेतेन शाम्यति ॥ १३७ ॥

कूठ, वच, अदरख, चीता, इन्द्रजौ, पाठ, अज-
मोद और पीपल इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण
बनालेवे । इस चूर्णको एक तोला प्रमाण लेकर गरम
जलके साथ पान करे । इससे प्लीहोदर और
उदावर्त्त ये सब रोग शान्त होते हैं ॥ १३६ ॥ १३७ ॥

पातव्यो युक्तितः क्षारः क्षीरेणोदाधि-
शुक्तिजः । प्रयसा च प्रयोक्तव्याः पि-
प्पलयः प्लीहशान्तये ॥ १३८ ॥

समुद्रकी सीपके खारको दूधके साथ सेवन कर-
नेसे अथवा पीपलके चूर्णको दूधके साथ सेवन कर-
नेसे प्लीहारोग शान्त होता है ॥ १३८ ॥

अर्कपत्रं सलवणं पुटदग्धं सुचूर्णितम् ।
निहन्ति मस्तुना पीतं प्लीहानमति-
दारुणम् ॥ १३९ ॥

आकके पत्ते और सैधानमक इनको पुटपाकके
विधिसे फूककर चूर्ण कर ले । इस चूर्णको दहीके
पानीके साथ पान करनेसे दारुण प्लीहारोग दूर होता
है ॥ १३९ ॥

वायुः प्लीहानमुद्धृत्य कुपितो यस्य तिष्ठति । शूलैः परितुदन्पार्श्वप्लीहा तस्य विवर्द्धते ॥ १४० ॥

वायु जिस रोगीके प्लीहाको उठाकर कुपित होता है उसके शूल, तोड़नेसरीखी पीडा, पार्श्वशूल और प्लीहाकी वृद्धि होती है ॥ १४० ॥

हिंशुत्रिकटुकं कुष्ठं यवक्षारोऽथ सैन्धवम् । मातुलुङ्गरसोपेतं प्लीहशूलहरं रजः ॥ १४१ ॥

हींग, त्रिकुटा, कूठ, जवाखार और सैधानमक इनका चूर्ण करके विजारेनीवूके रसके साथ सेवन करनेसे प्लीहा और शूल नष्ट होता है ॥ १४१ ॥

पलाशक्षारतोयेन पिप्पली परिभाविता । गुल्मप्लीहानिश्मनी वह्निदीप्तिकरी मता ॥ १४२ ॥

ढाकके खारके जलमें पीपलको भावना देकर सेवन करनेसे गुल्म और प्लीहाकी पीडा शान्त होती है तथा अग्नि दीपन होता है ॥ १४२ ॥

रसेन जम्बीरफलस्य शङ्खनाभीरजः पीतमवश्यमेव । कर्षप्रमाणं शमयेदशेषं प्लीहामयं कूर्म्मसमानमाशु १४३ ॥

जम्बीरीनीवूके रसमें शखनाभिके चूर्णको एक तोला परिमाण डाल कर पान करनेसे सर्वप्रकारकी और कष्टुएके समान बढी हुई प्रीहा शान्त होजाती है ॥ १४३ ॥

शरपुङ्गमूलकल्कः पीतस्तक्रेण नाशयत्यचिरात् । चिरतरकालसमुत्थं प्लीहानं रुद्धमवगाढम् ॥ १४४ ॥

सरफोकेकी जडके कल्कको तक्रके साथ पान करनेमें शीघ्रही बहुत दिनोंकी पुरानी और अत्यन्त जमी हुई प्रीहा शान्त होती है ॥ १४४ ॥

धारं वा विडकृष्णाभ्यां पृत्तिकस्यान्दुनिःसृतम् । यद्धृत्प्लीहप्रशान्त्यर्थं पिवेत्प्रातर्यथाचलम् ॥ १४५ ॥

करजके खारके जलमें जवाखार, विरियासंचरनमक और पीपल इनको एकत्र मिलाकर प्रातःकाल बलानुसार पान करनेसे यकृत और प्लीहा शान्त होती है ॥ १४५ ॥

सुस्विन्नं शाल्मलीपुष्पं निशापर्युषितं नरः । राजिकाचूर्णसंयुक्तमद्याप्लीहोपशान्तये ॥ १४६ ॥

सेमलके फूलोंको उसोजकर रात्रिमें रखे रहने देवे, पश्चात् प्रातःकालको उसमें राईका चूर्ण डालकर पान करनेसे प्लीहारोग शान्त होता है ॥ १४६ ॥

यवान्यादिचूर्ण ।

यवानिकाचित्रकयावशूकषड्ग्रन्थिदन्तीमगधोद्भवानाम् । प्लीहानमेतद्विनिहन्ति चूर्णमुष्णांशुना मस्तुसुरासवैर्वा ॥ १४७ ॥

अजवायन, चीता, जवाखार, वच, दंती और पीपल, इनके चूर्णको गरम जलके साथ अथवा दहीके पानीके साथ या मदिराके साथ अथवा आसवके साथ सेवन करनेसे प्लीहारोग दूर होता है ॥ १४७ ॥

विडंगादिचूर्ण ।

विडङ्गानि यवानी च चित्रकं चेति तत्समम् । द्विगुणं देवदारु च नागरं सपुनर्नवम् ॥ १४८ ॥ अथ चैतानि चूर्णानि गवां मूत्रेण पाययेत् । उदरीभूतमप्येवं प्लीहानं संप्रणाशयेत् ॥ १४९ ॥

वायविडंग, अजवायन और चीता ये सब समान भाग लेवे तथा देवदारु, सोढ और पुनर्नवा ये सब दो दो भाग लेवे। इन सबका एकत्र चूर्ण करके गोमूत्रके साथ पान करनेसे अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त हुई प्लीहा नष्ट होती है ॥ १४८ ॥ १४९ ॥

भल्लातकमोदक ।

भल्लातकाभयाजाजीगुडेन सह मोदकः । सप्तरात्रान्निहन्त्याशु प्लीहानमतिदारुणम् ॥ १५० ॥

भिलावे, हरड और जीरा इनको एकत्र पोंग कर गुडमें मिला कर मोटक बना लेवे । इन मोदकोको सात दिनपर्यंत सेवन करनेसे अत्यन्त दारुण प्लीहा भी नष्ट होती है ॥ १५० ॥

अभयावटक ।

अभयाफलत्रयाणां पलत्रयं त्रिकटु-
कात्पलमेकञ्च । दीप्यकचव्यकचित्रक-
विडङ्गवृक्षाम्लसिन्धुवचार्धपलैः १५१ ॥
त्वक्पत्रेलाकर्षेस्त्रिभिर्युक्तं सुचूर्णितं
सूक्ष्मम् । त्रिंशद्गुडपलसहिताः कर्त-
व्यास्तदक्षसंमिता वटकाः ॥ १५२ ॥
अभयावटका नाम्ना प्लीहाशोऽगुल्म-
जठरापहराः । पांड्वामयकामलिनां
मन्दाग्नीनां सर्वदा शस्ताः ॥ १५३ ॥

हरड और त्रिकला ३ पल, त्रिकुटा १ पल, अज-
वायन, चव्य, चीता, वायविडंग, विपांखिल, सैधा-
नमक और वच, ये प्रत्येक औषधि दो दो तोले, तथा
दालचीनी, तेजपान और इलायची ये प्रत्येक औषधि
एक एक तोला, सबको एकत्र पीसकर वारीक चूर्ण
कर लेवे और इसमें तीस पल गुड मिला कर एक
एक तोलेके बडे बना लेवे । यह अभयावटक-प्लीहा,
ववासीर, गुल्म, उदररोग, पाण्डुरोग, कामला और
मन्दाग्नि इन सब रोगोंमें हितकारी है ॥ १५१ ॥
॥ १५२ ॥ १५३ ॥

अग्निमुखलवण ।

चित्रकं त्रिवृतादन्तीत्रिकलापुष्करैः
समैः । यावन्त्येतानि चूर्णानि ता-
वन्मात्रन्तु सैन्धवम् ॥ १५४ ॥ भा-
वयेत्तु स्नुहीक्षीरे तत्काण्डे प्रक्षिपे-
द्बुधः । मृत्तिकेनानुलिप्तस्य प्रक्षिपे-
जातवेदसि ॥ १५५ ॥ सुदग्धन्तु त-
तो ज्ञात्वा उद्धरेत्तु शनैर्भिषक् । य-
कृत्प्लीहोदरानाहगुल्मपांड्वामयादि-
हत् ॥ १५६ ॥ सेविनोऽग्निबलं मत्वा
अशोऽभ्यः प्रतिमोक्षयेत् । लवणो-
ऽग्निमुखो नाम्ना वहेर्दीप्तिकरः परः १५७

चीता, निसोत, दूती, त्रिकला और पोहकरमूल
ये प्रत्येक औषधि समान भाग लेवे और सबके बरा-
बर सैधानमक लेवे । इन सबका एकत्र चूर्ण करके थू-
हरके दूधमे भावना देवे, फिर इस औषधिको सेडके
डंडमे भर कर उसके ऊपर मिट्टी लपेट कर अग्निमे पुट-
पाककी विधिसे पकावे । जब अच्छे प्रकारसे पक जाय
तब निकाल लेवे । शीतल होनेपर इसका चूर्ण करके
सेवन करे । इसको सेवन करनेसे-यकृत, प्लीहा, उदर-
रोग, आनाह, गुल्म, पाण्डुरोग और ववासीर नष्ट होती
है । इसको अग्निका बलावल विचारकर सेवन करे । यह
अग्निमुखलवण अग्निको दीपन करता है ॥ १५४-१५७ ॥

षट्पलकघृत ।

पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकसुना-
गराणाम् । ससैन्धवानां पलिका भा-
गा घृतप्रस्थं तदेकध्यम् ॥ १५८ ॥
तुल्यक्षीरं विपचेत्सर्पिः स्यात्खलु
षट्पलकं नाम्ना । प्लीहाग्निसादगु-
ल्मोदावर्त्तश्चयथुपांडुगदान् ॥ १५९ ॥
श्वासकासं सपीनसमर्द्धाङ्गवातवि-
षमज्वरानपहरति ॥ १६० ॥

पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, सोठ और सै-
धानमक ये प्रत्येक औषधि चार चार तोले लेकर क-
लक बना कर उस कलकके द्वारा एक प्रस्थ घृतको
बराबरके दूधमे पकावे तो यह पट्पलनामवाला घृत
सिद्ध होता है । यह पट्पलघृत-प्लीहा, अग्निकी
मंदता, गुल्म, उदावर्त्त, सूजन, पाण्डुरोग, श्वास,
खोसी, पीनस, अर्द्धाङ्गवात और विषमज्वर इन सब-
को नष्ट करता है ॥ १५८ ॥ १५९ ॥ १६० ॥

वह्निषट्प्रस्थघृत ।

चिरविल्वत्वचः काथमार्द्रकस्वरसं
घृतम् । मस्तुभल्लातककाथं शुक्तञ्चै-
चाम्लकाञ्जिकम् ॥ १६१ ॥ एतैस्तुल्यै-
र्वृतं धृत्वा कल्कैरेतैस्तु पादिकैः । ग्र-
न्थिकव्योषहपुषाहिङ्गवाजीद्वयं त-
था ॥ १६२ ॥ चव्याजमोदे सक्षारे
तथा लवणपञ्चकम् । श्रेयसी चेति
भृदुना तत्साध्यमनलेन वा ॥ १६३ ॥

वह्निषट्प्रस्थमेतत्तु जठरानलदीपनम् ।
प्लीहोदराध्मानहरं वातोदरदको-
दरम् ॥ १६४ ॥ कफवातकृते चैव
शूलेऽतीव प्रशस्यते । अर्शांसि ना-
शयत्याशु कृमींश्चैव विशेषतः ॥ १६५ ॥
सपांडुराणि कुष्ठानि दद्रुकुष्ठानि या-
नि च । अन्यान्यपि च कुष्ठानि ता-
नि हन्यादिदं घृतम् ॥ १६६ ॥

करंजकी छालका काथ, अदरखका स्वरस, दही-
का पानी, भिलावेका काथ, गुक्तनामक सधान और
खट्टीकांजी ये प्रत्येक पदार्थ एक २ प्रस्थ लेकर इनमे
एक प्रस्थ उत्तम गौका घी डाल कर तथा पीपलामूल,
त्रिकुटा, हाऊवेर, हीग, जीरा, कालाजीरा, चव्य, अज-
मोद, जवाखार पांचोनामक और हरड इन औषधि-
योका कल्क डाल कर मंद मंद अग्निसे घृतको सिद्ध
करे । यह वह्निषट्प्रस्थघृत-जठराग्निको दीपन कर-
नेवाला तथा प्लीहा, उदररोग, आध्मान, वातोदर,
जलोदर, कफवातजनित उदररोग, शूल, ववासीर,
कृमिरोग, पाण्डुरोग, कोठ, दाद और अन्यान्य सर्व-
प्रकारके कुष्ठोको नष्ट करता है ॥ १६१ ॥ १६२ ॥
॥ १६३ ॥ १६४ ॥ १६५ ॥ १६६ ॥

चित्रकघृत ।

चित्रकस्य तुलाकाथे घृतप्रस्थं विपा-
चयेत् । आरनालन्तु द्विगुणं दधिम-
ण्डं चतुर्गुणम् ॥ १६७ ॥ पञ्चकोल-
कतालीसक्षारैर्लवणसंयुतैः । द्वि-
जीरकनिशायुग्मैर्मरिचन्त्वत्र दाप-
येत् ॥ १६८ ॥ प्लीहगुल्मोद्गरोन्माद-
पांडुरोगारुचिज्वरान् । वस्तिहृत्पा-
र्श्वकट्यूरुशूलोदावर्त्तपीनसान् १६९ ॥
हन्यात्पीतं तदर्शोर्ध्रं शोथघ्नं दीपनं
परम् । बलवर्णकरश्चापि भस्मकश्च
नियच्छति ॥ १७० ॥

चीतेका काथ ४०० तोले, उत्तम गौका घी १ प्रस्थ,
कांजी २ प्रस्थ, दहीका मांड ४ प्रस्थ तथा पीपल पी-
पलामूल, चव्य, चीता, सोंठ, तालीसपत्र, जवाखार,

सैधानमक, जीरा, कालाजीरा, हलदी, दारुहल्दी
और कालीमिरच इनका कल्क डाल कर मन्द मन्द
अग्निके द्वारा घृतको पकावे । यह घृत-प्लीहा, गुल्म,
उदररोग, उन्माद, पाण्डुरोग, अरुचि, ज्वर, वस्ति-
शूल, हृदयशूल, पार्श्वशूल, कटिशूल, ऊरुशूल,
उदावर्त्त, पीनम, ववासीर, सूजन और भस्मकरो-
गको दूर करता है तथा अग्निको दीपन करनेवाला,
बल और वर्णको बढ़ानेवाला है ॥ १६७ ॥ १६८ ॥
॥ १६९ ॥ १७० ॥

चित्रकादिघृत ।

चित्रकस्य तुलाकाथे घृतप्रस्थं विपा-
चयेत् । दध्यारनालद्विगुणं दधिमण्डं
चतुर्गुणम् ॥ १७१ ॥ पञ्चकोलकता-
लीशं द्वौ क्षारौ लवणानि च । य-
वानिके द्वे जरणे मरिचान्यत्र दाप-
येत् ॥ १७२ ॥ प्लीहशोथोदराशोर्ध्रं
विशेषाद्द्विदीपनम् । बलवर्णकरं वा-
पि भस्मकश्च नियच्छति ॥ १७३ ॥

चीतेका काथ १०० पल, उत्तम गौका घी १
प्रस्थ, दही और कांजी प्रत्येक दो दो प्रस्थ, दहीका
मांड चार प्रस्थ, तथा पीपल, पीपलामूल, चव्य,
चीता, सोंठ, तालीसपत्र, जवाखार, सजी, सैधान-
मक, अजवायन, जीरा, कालाजीरा और कालीमिरच
इनका कल्क डाल कर सबको यथाविधिसे मिला कर
मन्द २ अग्निसे घृतको पकावे । यह घृत-प्लीहा,
शोथोदर, ववासीर और भस्मकरोगको नष्ट करता है
विशेषकर अग्निको दीपन करनेवाला और बल तथा
वर्णको बढ़ानेवाला है ॥ १७१ ॥ १७२ ॥ १७३ ॥

ब्राह्मघृत ।

शिलाह्वयं नागरकालशाकं काका-
दनीमूलानिदग्धिका च । पञ्चैव द-
द्याल्लवणानि हिंशु कृष्णः च तैरक्ष-
समैः पृथक्पृथक् ॥ १७४ ॥ प्रस्थं घृतं
स्याच्च पचेच्छनैः शनैश्चतुर्गुणं मूत्र-
मतः प्रदयिते । पयश्च दद्याद्विगुणं
विपक्वं तद्ब्रह्मजुष्टं प्रवदन्ति सर्पिः ।

प्लीहोदरं दूप्यमथोदरञ्च आयम्यमानं जठरं निहन्ति ॥ १७५ ॥

शिलारस, सेंट, नाडीका शारु, कौआठोडीकी जड, कटेरीकी जड, पांचोतमक, हींग और पीपल ये प्रत्येक औषधि एक १ तोला लेकर कलक बनावे, तथा गौका उत्तम घी १ प्रस्थ, गोमूत्र ४ प्रस्थ, दूध २ प्रस्थ इन सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिसे घृतको पकावे । यह घृत-प्लीहोदर, दूप्योदर और सर्व प्रकारके उदर रोगोंको दूर करता है ॥ १७४ ॥ १७५ ॥

शंखद्राव ।

स्वर्जिका च यवक्षारः कासीसं टङ्कणं तथा । सौराहं सैधवश्चैव स्फटिकं नवसारकम् ॥ १७६ ॥ सर्वमेकत्र कर्तव्यं सूक्ष्मचूर्णन्तु कारयेत् । कूपीमध्ये क्षिपेत्तन्तु द्रावयेद्द्रावयन्त्रके ॥ १७७ ॥ गुल्मं प्लीहांस्तथानाहं रोगान्सर्वोदरांस्तथा । अशांसि ग्रहणीदोषं भगन्दरव्रणानि च । नाशयेन्नात्र संदेहो नान्यथा शंकरोऽब्रवीत् ॥ १७८ ॥

मजी, जवाखार, कसीस, सुहागा, सोरा, सैधानमक, फटकरी और नवसादर ये सब समानभाग लेकर बारीक पीसकर चूर्ण करले, फिर इस चूर्णको काचकी सीसीमें रखकर द्रावकयत्रमें द्रवीभूत करे । यह शंखद्राव-गुल्म, प्लीहा, आनाह, सर्वप्रकारके उदररोग, बवासीर, संग्रहणी, भगन्दर और व्रण इन सबको निश्चय नष्ट करता है ॥ १७६ ॥ १७८ ॥

रोहीतकाद्यघृत ।

रोहीतकत्वचः श्रेष्ठाः पलानां पञ्चविंशतिः । कोलद्विप्रस्थसंयुक्तं कषायमुपकल्पयेत् ॥ १७९ ॥ पलिकैः पञ्चकोलेस्तु तत्तुल्यैश्चापि मात्रया । रोहीतकत्वचा पिष्टैर्वृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ १८० ॥ प्लीहाभिवृद्धिं शमयेदेतदाशु प्रयोजितम् । तथा-गुल्म-

ज्वरश्वासकृमिपांडुत्वकामलाः १८१ ॥ अत्राष्टगुणे जले निष्काथ्य चतुर्भागावशेषः कर्तव्यः ।

रोहिडेकी उत्तमछाल १०० तोले और बेरीकी छाल २ प्रस्थ लेकर काथ बनावे । इस काथमें पंचकोल और रोहिडेका कलक एक एक पल डाल कर एक प्रस्थ घृतको पकावे । यह रोहितकघृत-प्लीहाकी वृद्धि, गुल्म, ज्वर, श्वास, कृमि, पाण्डुरोग और कामला इन सब रोगोंको नष्ट करता है । यहाँ अठगुने जलमें काथ करके चतुर्थांश शेष रखना चाहिए ॥ १७९ ॥ ॥ १८० ॥ १८१ ॥

महारोहीतकघृत ।

रोहीतकात्पलशतं संकाथ्य बदिराठकम् । साधयित्वा जलद्रोणे चतुर्भागावशेषिते ॥ १८२ ॥ घृतप्रस्थं समावाप्य छागक्षीरं चतुर्गुणम् । तस्मिन्द्रव्याणि सर्वाणि प्रदद्यात्कार्षिकाणि च ॥ १८३ ॥ व्योषं फलत्रिकं हिंशु यवानी तुम्बुरुं विडम् । अजाजी कृष्णलवणं दाडिमं देवदारु च ॥ १८४ ॥ पुनर्नवा विशाला च यवक्षारं सपौष्करम् । विडङ्गं चित्रकश्चैव हपुषा कारवी तथा ॥ १८५ ॥ एतैर्वृतं विपक्वन्तु विदध्याद्वाजने नवे । पाययोत्रिपलां मात्रां व्याधेर्वलमवेक्ष्य च ॥ १८६ ॥ रसकेनाथ यूषेण पयसा वा घृतं पिबेत् । प्रयुक्तन्तु घृतं तेषां व्याधीन्हन्यादिमान्बहून् ॥ १८७ ॥ यकृत्प्लीहोदरश्चैव प्लीहशूलं तथैव च । हृच्छूलं कुक्षिशूलञ्च पार्श्वशूलमरोचकम् ॥ १८८ ॥ विबन्धशूलं शमयेत्पांडुरोगं सकामलम् । छर्द्यतीसारशूलघ्नं तन्द्राज्वरनिवारकम् ॥ १८९ ॥ रोहीतकघृतं ह्येतत्प्लीहानां दृष्टमौषधम् ॥ १९० ॥

रोहिडेकी छाल ४०० तोले, बेरीकी छाल २५६ तोले इनको एक द्रोण जलमे पकावे । जब पकते पकते जल चौथाई भाग शेष रहजाय तब उतार कर छानलेवे । फिर इसमे गोका उत्तम घी १ प्रस्थ, वरुगीका दूध ४ प्रस्थ, तथा त्रिकुटा, त्रिफला, हींग, अजवायन, तुम्बुरु, विडनमक, जीरा, कालानमक, अनारदाना, देवदारु, पुनर्नवा, इन्द्रायन, जत्राखार, पोहकरमूल, वायविडंग, चीता, हाऊवेर और कलौजी इन प्रत्येक औषधिका कल्क एक २ तोला डालकर यथाविधिसे घृतको उत्तम नवीन पात्रमें सिद्ध करे इसमेसे प्रतिदिन प्रातःकाल रोगीके बलानुसार तीन पल परिमाण मांसरसके साथ, अथवा शृपके साथ, या दूधके साथ, किम्बा घीके साथ सेवन करावे । यह घृत-यकृत, प्लीहा, उदररोग, गुल्म, ववासीर और सप्रहणो रोगको दूर करती है और अग्निको दीप्त करती है ॥ १८२-१९० ॥

कदलीक्षार तैल ।

कदलीतिलनालानां क्षारेण क्षुरकस्य च । पीतं तैलं जयेन्नृणां प्लीहानं कफवातजम् ॥ १९१ ॥

केला, तिलोकी नालका खार और तालमखानेका खार इनके द्वारा तेलको पकावे। इस तेलके पान करनेसे कफवातजप्लीहा रोग दूर होता है ॥ १९१ ॥

माणादिगुटिका ।

माणमुग्राऽमृतावासास्थिराचित्रकसैन्धवम् ॥ नागरं तालमूलञ्च प्रत्येकन्तु त्रिकार्षिकम् ॥ १९२ ॥ विडं सौवर्चलं क्षारौ पिप्पल्यश्चापि कार्षिकः । एतच्चूर्णीकृतं सर्वं गोमूत्रस्याढकं पचेत् ॥ १९३ ॥ सान्द्राभूते गुटीं कुर्यादृत्त्वा त्रिपलमाक्षिकम् । यकृतप्लीहोदरहरो गुल्मार्शोग्रहणीहरः । योगः परिकरो नाम्ना वह्निसन्दीपनः परः ॥ १९४ ॥

मानकन्द, वच, गिलोय, अहूसा, गालिपर्णी, चीता, सैधानमक, सौंठ और सुसली ये प्रत्येक

औषधि तीन तीन तोले, विडनमक, कालानमक, जवाखार, सर्जाखार और पीपल ये प्रत्येक औषधि एक एक तोला-इन सबका एकत्र चूर्ण करके एक आढक गोमूत्रमें पकावे । जब पकते पकते गाढा होजाय तब शीतल होनेपर उतार कर उसमे १२ तोल ग्राहद मिलाकर गोलियाँ बनालेवे । यह मानादिगुटिका-यकृत, प्लीहा, उदररोग, गुल्म, ववासीर और सप्रहणो रोगको दूर करती है और अग्निको दीप्त करती है ॥ १९२-१९४ ॥

चित्रकलेह ।

चित्रकस्य शतं दद्यात्तत्तुल्यं ग्रन्थिकस्य च । पञ्चाशदशमूलस्य शेषान्पञ्च पलान्पृथक् ॥ १९५ ॥ बला भाङ्गीशटी पाठा पौष्करं मूलमेव च । चतुद्रोणेऽम्भसःपक्त्वा पादशेषावतारिते ॥ १९६ ॥ पचेद्गुडशतं दत्त्वा तैलवत्साधु साधयेत् । चतुष्पलन्तु पिप्पल्यास्तुगाक्षीर्याश्चतुष्पलम् ॥ १९७ ॥ त्रिजातकपलञ्चैकं मरिचस्य पलं तथा । सूक्ष्मचूर्णं ततः कृत्वा दत्त्वा सम्यग्विघट्टयेत् ॥ १९८ ॥ पलमात्रं ततः खोदत्प्लीहगुल्मोदराणि च । हन्ति यक्ष्माणमत्युग्रं पित्तार्तिं चाम्लपित्तनाम् ॥ १९९ ॥ भारद्वाजेन कथितो लेहश्चित्रकसंज्ञकः ॥ २०० ॥

चीता ४०० तोले, पीपलामूल ४०० तोले, दशमूलकी औषधिये २०० तोले, खिरौंटी, भारंगी, कचूर, पाठ और पोहकरमूल ये प्रत्येक औषधि बीस बीस तोले, सबको चार द्रोण जलमे पकावे । जब पकते पकते जल चौथाई भाग शेष रहजाय तब उतार कर छानलेवे । फिर इस काथमे गुड ४०० तोले, पीपल १६ तोले, बंगलोचन १६ तोले, त्रिजातकका चूर्ण ४ तोले और कालीभिरच ४ तोले डालकर उत्तमविधिसे तेलके समान पकावे । जब पककर गाढा होजाय तब करछीसे चलाकर एकमएक कर देवे । इसमेसे चार तोले प्रमाण खाय । यह प्लीहा, गुल्म, उदररोग उग्र राजयक्ष्मा, पित्त-

की वेदना और अम्लपित्तको दूर करता है यह चित्र-
कलह भारद्वाजकपिने कहा है ॥ १९५-२०० ॥

क्षारपिप्पली ।

चपलायाः पलं पञ्च यवाग्रं तावदेव
तु । सामुद्रलवणानाञ्च तावन्मात्रं प्र-
दापयेत् ॥ २०१ ॥ वेणुसाखोटकञ्चैव
शिखर्यङ्गास्तथैव च । शिरिषो लोध्रवृ-
क्षश्च विशाखा माणकन्दकम् ॥ २०२ ॥
सुधा च सुरपुष्पञ्च शम्याकदलस-
ञ्चयम् । वरुणं शिशुमूलञ्च वाट्यालं
चित्रकं तथा ॥ २०३ ॥ एषां पञ्चप-
लान्भागान्पलांशान्पञ्चविंशतिम् ।
क्षारं दत्त्वा तु सर्वेषां पचेत्तत्र जला-
टके ॥ २०४ ॥ गोमूत्रं तावदेवात्र
साधयेच्च यथाविधि । भक्षयेद्घृत-
संयुक्तां यकृतप्लीहहरां पराम् । वातम-
ष्टीलिकाञ्चैव गुल्मं हन्ति त्रिदोष-
जम् ॥ २०५ ॥

पीपल २० तोले, जवाखार २० तोले, समुद्रनमक
२० तोले, वाँस, सिहोडा, चिरचिटा, शिरस, लोध,
करेला, मानकंद, शृहर, लौंग, अमलतासके पत्र, वरना,
सहिजनेकी जड़, खरेटी और चीता ये प्रत्येक
औषधि पांच पांच पल और जवाखार १०० तोले
इन सबको एक आठकजलमें पकावे और जलकी
बराबर गोमूत्र डाले, उत्तमविधिसे धीरे धीरे पकावे।
इनको घीके साथ सेवन करनेसे—यकृत, प्लीहा, वात,
अष्टीलिका और त्रिदोषजगुल्म नष्ट होता है ॥ २०१ ॥
॥ २०२ ॥ ॥ २०३ ॥ ॥ २०४ ॥ ॥ २०५ ॥

वृहत्क्षारपिप्पली ।

प्रशस्तेऽहनि नक्षत्रे वृक्षकं लोध्रचि-
त्रकम् । वरुणं शिशुमूलञ्च वाट्यालं
चाथ पुष्करम् ॥ २०६ ॥ कन्दो वि-
शाखापुष्पी च तथा ब्राह्मणयष्टिका ।
पृथक्पञ्चपलान्येषां पलांशात्पञ्चविं-
शतिः ॥ २०७ ॥ क्षारं कृत्वा पचे-
द्भारि गोमूत्राटकयोस्तथा । सर्वं वि-

पाच्य सक्षारा समुस्ताऽनलपिप्पली
॥ २०८ ॥ पृथक्पञ्चपलैर्भागैः पिप्प-
लीघृतमर्दिता । यकृतप्लीहहरा श्रेष्ठा
वातष्टीलामगुल्मनुत् ॥ २०९ ॥

उत्तमादिन उत्तमनक्षत्रमें कुडकी छाल, लोध,
चीता, वरना, सहिजनेकी जड़, खरेटी, पोहकरमूल,
मानकन्द, पुनर्नवा और भारगी ये प्रत्येक औषधि
पांच पांच पल लेकर १०० तोले खार बनावे । इस
क्षारजलको एक आठक जल और गोमूत्रमें पकावे ।
जब पकते पकते गाढा होजाय तब उतार लेवे, फिर
इसमें नागरमोथा, चीता और पीपल इन प्रत्येकका
चूर्ण बीस बीस तोले डालदेवे । पीपलको घीमें मर्दन
करके सेवन करे तो यकृत, प्लीहा, वातष्टीला और
गुल्मरोग नष्ट होता है ॥ २०६—२०९ ॥

अभयालवण ।

पारिभद्रपलाशार्कस्तुह्यपामार्गचित्र-
काः । वरुणोऽग्निमन्थं वसुकं श्व-
दंष्ट्रा वृहतीद्वयम् ॥ २१० ॥ पूती-
कास्फोटकुटजकोशातक्यः पुनर्न-
वा । समूलपत्रशाखायाः क्षोदायि-
त्वा उल्लखले ॥ २११ ॥ तिलनाल-
प्रदीप्ताग्निसुदग्धं भस्म शीतलम् ।
क्षारप्रस्थं गृहीत्वा तु न्यसेत्पात्रे दृढे
नवे ॥ २१२ ॥ जलद्रोणे विपक्तव्यं
यावत्पादावशेषितम् । पूर्ववत्क्षार-
कल्केन साधयेच्च विचक्षणः ॥ २१३ ॥
प्रस्थमेकञ्च लवणं तदूर्द्ध्वं हरीत-
कीम् । तुल्याम्बुभागगोमूत्रं साधये-
न्मृदुनाग्निना ॥ २१४ ॥ किञ्चित्स-
बाष्पे चार्धं च सम्यक् सिद्धेऽवतारि-
ते । अजाजी त्र्यूषणं हिंशुयवानी पु-
ष्करं शटी ॥ २१५ ॥ एतैस्तु चार्धपलि-
कैश्चूर्णं कृत्वा प्रदापयेत् । लवणञ्चाभ-
यानां वै भक्षयेच्च यथाबलम् ॥ २१६ ॥
व्याधिश्चावेक्ष्य मतिमाननुपानं यथा

हितम् । ये च कोष्ठगता रोगास्तान्नि-
हन्ति न संशयः ॥ २१७ ॥ यकृतप्ली-
होदरानाहगुल्माष्ठीलाग्निसादनुत् ।
प्रतिनून्यतिहृद्रोगशर्कराशमरिनाश-
नम् ॥ २१८ ॥

पारिभद्र, फरहद, ढाक, आक, यूहर, चिरचिटा,
चीता, वरना, अरणी, मंदार, गोखुरु, कटेरी, बडी
कटेरी, दुर्गन्धकरंज, कोइली, कुठेकी छाल, कडवी,
तोरई और पुनर्नवा-दन सबका पंचांग लेकर ओख-
लीमे कूट लेवे। फिर इनको तिलोंकी लकाड़ियोंके द्वारा
भस्म करलेवे। जब वह शीतल हो जाय तब उसे
भस्मको १ प्रस्थ लेकर जलमे नितार कर एक द्रोण
जलमे नवीन उत्तम पात्रमे पकावे। जब जल चौथाई
भाग शेष रहजाय तब उसमे सैधानमक १ प्रस्थ,
हरड ३२ तोले और जलकी बराबर गोमूत्र डालकर
मंद २ अग्निमे पकावे जब अच्छे प्रकारसे पककर
तैयार होजाय और उसमे कुछ भाफ रहे तब उनार-
लेवे फिर भाफ उठते समय उसमे जीरा, त्रिकुटा,
हींग, अजवायन, पोहकरमूल और कचूर ये प्रत्येक
ओषधि दो दो तोले चूर्ण करके मिलादेवे। इस अभ-
यालवणको रोगीके बलानुसार भक्षण करावे और
रोगका विचार कर अनुपानकी कल्पना करे तो यह
अभयालवण-समस्त कोष्ठगत रोग, यकृत, प्लीहा,
उदररोग, आनाह, गुल्म, अष्ठीला, मंदाग्नि, प्रति-
तूनी, हृदय और शर्करासमेत अउमरीको नष्ट करता
है ॥ २१०-२१८ ॥

अथ यकृतोदरनिदान ।

मन्दज्वराग्निः कफपित्तलिङ्गैरुपद्रुतः
क्षीणबलोऽतिपांडुः । स्वयान्यपार्श्वे
यकृति प्रदुष्टे ज्ञेयं यकृदाल्युदरं तथैव
॥ २१९ ॥ उदावर्त्तरुजानाहैर्मोहन्तु-
डहनज्वरैः । गौरवारुचिकाठिन्यै-
विद्यात्तत्र मलान्क्रमात् ॥ २२० ॥

जिसप्रकार प्लीहा बॉई ओर होती है उसी प्रकार
दहिनी ओर यकृत होता है। यकृत दूषित होनेसे यकृ-
दाल्युदर होता है। इसमें मन्दज्वर, मन्दाग्नि और
प्रायः कफ पित्तके बहुतेसे लक्षण होते हैं। रोगीका
बल क्षीण होजाता है और शरीरका वर्ण पीला पड़-

जाता है। उदावर्त्त, शूल और मल बंधासा रहना ये
लक्षण वातसे होते हैं। मोह, तृपा, दाह और ज्वर
ये लक्षण पित्तसे होते हैं तथा शरीरका भारीपन,
अरुचि और उदरमे कठिनता ये लक्षण कफमे होते
हैं ॥ २१९ ॥ २२० ॥

यकृतोदरकी चिकित्सा ।

प्लीहोद्दिष्टाः क्रियाः सर्वा यकृतिः
संप्रकल्पयेत् । कार्य्यश्च दक्षिणे बाहौ
तत्र शोणितमक्षिणम् ॥ २२१ ॥

यकृतरोगमें प्लीहारोगोक्त सम्पूर्ण चिकित्सा करनी
चाहिए तथा दहिने बाहुकी मध्यशिरामेसे रक्तमो-
क्षण करना चाहिए ॥ २२१ ॥

चित्रकवृत्त ।

पिप्पलीचित्रिकामूलं पिष्ट्वा सर्पि-
र्विपाचयेत् । घृतं चतुर्गुणं क्षीरं यकृ-
त्प्लीहोदरापहम् ॥ २२२ ॥

पीपल और चित्तकी जडके कल्कमें तथा चोगुने
दूधमे घृतको पकावे। यह घी-यकृत और प्लीहाको
दूर करता है ॥ २२२ ॥

पिप्पलीघृत ।

पिप्पलीकल्कसंयुक्तं घृतं क्षीरं चतुर्ग-
णम् । पिबेत्प्लीहाग्निसादाग्नियकृतो-
गंहरं परम् ॥ २२३ ॥

पीपलका कल्क ४ तोले, घी ३२ तोले और दूध
१२० तोले, सबको एकत्र मिलाकर पकावे। यह घृत
प्लीहा, मन्दाग्नि और विशेष कर यकृतरोगको दूर
करता है ॥ २२३ ॥

बद्धगुदोदरके लक्षण ।

यस्यान्त्रमन्नैरुपलेपिभिर्वा बालाशम-
भिर्वा पिहितं यथावत् । सञ्चियते
यस्य मलः सदोषः शनैः शनैः शर्क-
रवच्च नाड्याम् ॥ २२४ ॥ निरुद्धयते
तस्य गुदे पुरीषं निरेति कृच्छादपि
चाल्पमल्पम् । हन्नाभिमध्ये परिवृद्धि-
मेति तस्योदरं बद्धगुदं वदन्ति ॥ २२५ ॥

जिस मनुष्यकी आते उपलेपी अर्थात् चिपटनेवाले
पत्रार्थ अथवा शाकादि या बाल तथा कंकरपत्थरोसे

होजाय उस मनुष्यका मल वातादि दोषोंसे नित्य थोडा थोडा आंतोंमें जमता जाता है जिस प्रकार बुहारी देते समय थोडा २ कूडा करकट रह जाता है तब वह मल गुदद्वारको रोक कर कुछ २ मलको अत्यंत कठिनतासे निकलने देता है । इसमें हृदय और नाभिके बीचमें पेट बढ जाता है इसको बद्धगुदोदर कहते हैं ॥ २२४ ॥ २२५ ॥

क्षतोदरके लक्षण ।

शल्यं तथात्रोपहितं यदन्नं भुक्तं भि
नर्यागतमन्यथा वा । तस्मात्क्षता-
न्वात्सलिलप्रकाशः श्वावः स्रवेद्वै गु-
दजस्तु भूयः ॥ २२६ ॥ नाभेरधश्चो-
दरमेति वृद्धिं निस्तुद्यते द्वालयति
चातिमात्रम् । एतत्परिस्राव्युदरं प्र-
दिष्टं क्षतोदरं कीर्तयतो निबोध २२७

कॉटा, खोवडा, कंकर, हड्डी आदि पदार्थ अन्नके साथ पकनशयमें चले जायें, वहाँ तिरछे होकर आंतोंमें छेद कर दें तब उस क्षतयुक्त आंतोंसे पानीके समान गुदाके मार्गसे बहुत स्राव हो, इसमें नाभिके नीचे पेट बढ जाता है एवं अत्यन्त शूल और तोडने सरीखी पीडा होती है और इसको क्षतोदर कहते हैं कोई २ वैद्य परिस्राव्युदर भी कहते हैं ॥ २२६ ॥ २२७ ॥

उत्पत्तिसहितजलोदरके लक्षण ।

यः स्नेहपीतोऽप्यनुवासितो वा वां-
तो विरिक्तोऽत्यथवा निरूढः । पिबे-
जलं शीतलमाशु तस्य स्रोतांसि दु-
प्यन्ति हि तद्ग्रहानि ॥ २२८ ॥ स्नेहो-
पलिप्तेष्वथवापितेषु दकोदरं पूर्ववद-
भ्युपैति । स्निग्धं महत्तत्परिवृत्तनाभिः
समाततं पूर्णमिवांबुना वा ॥ २२९ ॥
यथाऽदृतिः क्षुभ्यति कम्पते च श-
ब्दायते चापि दकोदरं ततः ॥ २३० ॥

अब-इसके उपरांत जलोदरको कहते हैं-जो मनुष्य स्नेहपान करकेपर या अनुवासन वस्ति सेवन

* यह दृष्टगुदोदर उससे पृथक् है जो क्षुद्ररोगोंमें बद्धगुद नामसे है हेतुलक्षणोंभी अन्तर है ।

करनेपर, अथवा वमन विरेचन करनेपर किवा निरूह-
वस्ति सेवन करनेपर तत्काल ही बहुतसा शीतल जल
पी लेवै तो उस मनुष्यकी जल बहनेवाली नाडी दूषित
होकर अथवा उसमें चिकनाईके लिपटनेसे क्रमक्रमसे
बढकर जलोदर उत्पन्न होता है वह चिकना, बडा,
नाभिके चारों ओर बहुत ऊंचा होता है तथा तनासा
मालूम होता है और पानीकी मसककी समान मालूम
होता है । जिस प्रकार जलसे भरी हुई मसक झल्लर
झल्लर हिलती है उसी प्रकार यह भी हिलता है
गुड गुड शब्द हो, काँपे, इसको संस्कृतमें दकोदर या
जलोदर और भाषामें जलदर कहते है ॥ २२८ ॥
॥ २२९ ॥ २३० ॥

तस्य चिकित्सा ।

स्विन्ने बद्धोदरे योज्यो मूत्रैस्तीक्ष्णैर्य-
थान्वितैः । सतैललवणश्चात्र निरू-
हश्चानुवासनम् ॥ २३१ ॥

बद्धगुदोदररोगीको प्रथम स्वेदित करके यथादोषा-
नुसार तीक्ष्ण औषधियोंके द्वारा गोमूत्र, तेल और
लवण इनकी निरूह और अनुवासनवस्ति देवे २३१ ॥

क्षारगुटिका ।

क्षारं वनकरीषाणां स्विन्नं वस्त्रेण गा-
लयेत् । कार्षिकं पिप्पलीमूलं पञ्चैव
लवणानि च ॥ २३२ ॥ पिप्पली चि-
त्रकं शुण्ठी त्रिवृतात्रिफलावचाः ।
द्वौ क्षारी सातला दन्ती स्वर्णक्षीरी
विषाणिका ॥ २३३ ॥ कोलप्रमाणां
वाटिकां पिबेत्सौवीरसंयुताम् । श्वय-
थावथ वक्रस्य प्रवृद्धे च दकोदरे २३४

आरने उपलोंको लेकर वस्त्रमें छान लेवे, फिर उसमें
पीपलामूल और पांचोनामक, पीपल, चीता, सोठ,
निसोत, त्रिफला, वच, जवाखार, सजी, सातला
दूती, सत्यानासीकटेरी (चोक) और मेढाशिगी ये
प्रत्येक औषधि एक एक तोला लेकर सबको एकत्र
कूट पीसकर एक एक तोलेकी गोलीयाँ बना लेवे ।
प्रतिदिन एक गोली सौवीरनामक काजीके साथ पान
करे । इससे अत्यन्त बडा हुआ जलोदर और मुख-
गोध दूर होता है ॥ २३२ ॥ २३३ ॥ २३४ ॥

छिद्रान्त्रवद्धसंज्ञेषु जठरेषु प्रयोगवि-
त । लब्धानुज्ञो भिषक्कुर्यात्पाटन
व्यधनक्रियाम् ॥ २३५ ॥

क्षतोदर* तथा वद्धगुदोदररोगमे वैद्य रोगीके
मम्बान्वयोकी आज्ञा लेकर पश्चात् पाटन (चीरना)
और वेध (फाडना) क्रिया करे ॥ २३६ ॥

तथा जातोदकं सर्वमुदरं व्यधयेद्वि-
षक् । ज्ञातींश्च सुहृदो दारान्ब्राह्मणा-
न्नुपतिं गुरुम् ॥ २३६ ॥

सब प्रकारके जलोदरोमे वैद्य रोगीके जातिके
मनुष्योसे, मित्रोंसे, स्त्रीसे, ब्राह्मण, राजा, और गुरुसे
पूछ कर पश्चात् वेध कर्म करे ॥ २३६ ॥

अनुज्ञाप्य भिषक्कर्म विदध्यात्संश-
यावहम् । सुवेष्टितमधो नाभेर्वामत-
श्चतुरंगुलात् ॥ २३७ ॥

वैद्य रोगीसे पहले कह देवे कि भेदनेसे या तो
आरोग्य होजाओगे अथवा मर जाओगे । यदि इस
कहनेपर भी रोगी आज्ञा दे देवे तो उदरको अच्छे
प्रकारसे बख आदिसे वेष्टित करके नाभिके नीचे
वामओर चार अंगुल प्रमाण स्थानसे आगे वेध करे
॥ २३७ ॥

अंगुल्योदरमात्रन्तु त्रीहिवक्त्रेण भेद-
येत् । नाडीमुभयतो द्वारां संयोज्या-
पहरेज्जलम् ॥ २३८ ॥

त्रीहिमुख (धानके समान मुखवाले) गन्धको
अगुलीमे लेकर उससे भेद और उससे दोमुखी नली
डाल कर जलको निकाल देवे ॥ २३८ ॥

न चैकस्मिन्दिने सर्वं दोषन्त्वपहरे-
त्तथा । कासश्वासज्वरास्तृष्णा गात्र-
भङ्गश्च वेपथुः ॥ २३९ ॥ अतिसारश्च
सुतरां पर्य्यते जठरं तथा । तृतीय-
पञ्चमाद्येषु दिवसेष्वल्पशः पुनः २४० ॥

एक ही दिनमे समस्त दोषो (जल)को नहीं निका-
लना चाहिये क्योंकि एक दिनमे एक साथ सबको
निकालनेसे खोसी, उवास, ज्वर, तृषा, शरीरका टूटना,

* क्षतोदर और वद्धगुदादरकी पाटनादि क्रिया तथा
जलोदरवालेके उदरसे जल निकालनेकी विधि मलीमाति
सुधुतके चिहित्वा स्थानके चतुर्दश अंशायमें लिखी है ।

कम्प, अतिसार और पहलेके समान पेटका परिपूर्ण
होजाना यह सब विकार उत्पन्न हो जाते हैं इस
कारण तीसरे, अथवा पांचवें दिन धीरे धीरे वारंवार
थोडा २ जल निकाले ॥ २३९ ॥ २४० ॥

स्त्रावयेदुदकं तैललवणाभ्यां दृढं व्र-
णम् । बध्नीयाद्विस्त्रते दोषे जठरं
परिगृह्य वा ॥ २४१ ॥ संवेष्टयेद्वाढतरं
कौशेयाऽऽविकचर्मभिः । निःसृते
लङ्घितः पेयामस्नेहलवणां पिवेत् ॥
॥ २४२ ॥ अतःपरन्तु षण्मासान्क्षीरवृ-
त्तिर्भवेन्नरः । त्रीन्मासान्पयसा पेयां
पिवेत्रींश्चापि भोजयेत् । सकोरदूषं
श्यामाकं पयसा लवणं लघु । नरः
संवत्सरेणैव जयेत्प्रातजलोदरम् २४३ ॥

उदरका जल निकालनेके पश्चात् उदरको अच्छे
प्रकारसे पकड कर व्रणमे दोषोको प्रवेश होनेसे पह-
ले ही लवण और तेलको एकत्र पीसकर व्रणपर लेप
कर देवे और ऊपर रेशम अथवा भेडके चर्मको
बाध देवे । जल निकालनेके पश्चात् लघन करा कर
स्नेह ओर लवणरहित पेया पिलावे । फिर
इसके उपरात बराबर छः महीने तक केवल
एक दूधका ही सेवन करावे पश्चात् तीन महीने
तक दूधकी पेया बनाकर देवे और इसी प्रकार तीन
महीने पर्यन्त कोदों, समा, दूध, नमक और हलके
पदार्थ इन सबका भोजन देवे । इस प्रकार एकवर्ष
पर्यन्त बराबर उपचार करनेसे जलोदररोग दूर
हो जाता है ॥ २४१ ॥ २४२ ॥ २४३ ॥

उदरारिलोह ।

स्तुह्यर्कदन्तीधववह्निफञ्जी शोफारि-
पाशीशनकन्दकन्दः । माणत्रया-
मायिकबाणरण्डा तालं तथा मञ्जरि-
पारभद्रौ ॥ २४४ ॥ प्रत्येकशः क्षार-
चतुःपलाशं तथा पलाशस्य समैः
समः स्यात् । चतुर्गुणे काथजलाष्टशेषे
पचोद्विधिज्ञो विधिशुद्धलोहम् ॥ २४५ ॥
चूर्णीकृतं तत्पुटितं पुटेन तन्तुच्युतं
षोडशिकं पलानाम् । वर्षाभुभह्लात्-
कवह्निदन्तीत्रिवृद्वन्तीरविवृद्धमूल-

म् ॥ २४६ ॥ कञ्चुकी तालमूली च
पीवरी गिरिकर्णिका । नीलिनी बृह-
तीपत्रं शम्याकं विजयासमम् ॥२४७॥
चतुष्पलाशं कथिताष्टशेषं स्तुह्यर्क-
दुग्धेन पलाष्टकेन । दत्त्वा पचेत्ता-
म्रमये सुपात्रे पलैर्द्विरष्टैर्हविषस्तथैव ॥
॥ २४८ ॥ अमूनि चूर्णानि च सिद्ध-
शीति क्षिपेत्तथा लोहरजः समा-
नि ॥ २४९ ॥ लवणानि च स-
र्वाणि क्षारः पञ्चोषणस्तथा । म-
रिचं चाजमोदा च हिंशुभल्लातका-
नि च ॥ २५० ॥ चित्रकं तालमूल-
ञ्च गवाक्षी त्रिवृतामृता । वर्षाभूः
सूरणो मानो विडङ्गं दन्तिग्रन्थि-
कम् ॥ २५१ ॥ पलं माक्षिकचूर्णस्य
कंकुष्टकशिलाजतोः । गुग्गुलोर्गन्ध-
कस्यापि पारदस्य पलं पृथक् ॥ २५२ ॥
शीति पलाष्टकं क्षौद्रं दत्त्वा मधुवृता-
न्वितम् । लोहदण्डेन संवृष्य लोह-
पात्रे चिरं भिषक् ॥ २५३ ॥ विधि-
ज्ञोक्तेन विधिना हिताहारविहार-
वान् । अन्नपानं यथासात्म्यं कुर्व-
न्नित्यं निरामयः ॥ २५४ ॥ उदरेषु च
सर्वेषु शोथेषु विविधेषु च । अर्शःसु
च विशेषेण पांडुरोगे सकामले । वि-
धिनाक्तेन कुर्वाणो नरो रोगान्न वि-
न्दति ॥ २५५ ॥

यूहर, आक, दती, धौ, भिलावे, भारंगी, पुनर्नवा,
वराता, चर्मकारालु, जिमीकद, मानकंद, हल्दी, चीता,
नीला, अण्ड, ताड, चिरचिटा और फरहद इन प्रत्येक
औषधियोंका चार २ पल और सबके बराबर ढाकका
खार लेवे इनको चौगुने जलमे पकावे जब पकते २
आठवा भाग जल डोप रहजाय तब उतार लेवे । पश्चात्
उत्तम विधिसे पुटपाक किया हुआ तंतुरहित ऐसा शुद्ध
लोहा सोलह पल लेकर वारंवार आग्निमे तपा कर उप-
रोक्त काथमें बुझावे फिर पुनर्नवा, भिलावे, चीता, दती,

निसोत, द्रवंती, आककी जड, क्षीर, कचुकी, मुसली,
गतावर, कोइली, नील, बडीकटेरीके पत्ते, अमलतास
और भांग ये प्रत्येक औषधि चार २ पल लेकर
चौगुने जलमे पकावे । जब पकते २ जल चौथाई
भाग वाकी रहजाय तब उतारकर छान लेवे । फिर
इस काथमे यूहरका दूध चार पल, आकका दूध ४
पल और गौका घी १६ पल मिलाकर ताबेके पात्रमे
पकावे । जब पक कर गाढा हो जाय तब इसमे पूर्वो-
क्त लोहेका चूर्ण १६ पल, पांचो लवण, जवाखार,
सज्जीखार, पचकोल, काली मिर्च अजमोद, हींग,
भिलावे, चीता, मुसली, इद्रायन, निसोत, गिलोय, पुन-
र्नवा, सूरणकद, मानकंद, वायविडंग, दंती, पीपला-
मूल, सोनामाखीका चूर्ण, मुरदाशंख, सिलाजोत,
गूगल, गंवक और शुद्ध पारा ये प्रत्येक औषधि चार
चार तोले मिलाकर पकावे । जब पक कर गांठल
हो जाय तब शहद ३२ तोले मिला देवे पश्चात् इसको
एक उत्तम लोहेके पात्रमे भर कर रख देवे आर इसमे
शहद तथा घी मिला कर लोहेके डंडेसे खूब अच्छे
प्रकारसे चला देवे । इसमेसे विधिपूर्वक यथा मात्रा-
नुसार सेवन करे । इसपर हितकारक आहार और
विहार करे । और जो अपनेको सात्म्य (माफिक)
हो ऐसे अन्नपान सेवन करे । इससे मनुष्य आरोग्य
हो जाते है । यह लोह सब प्रकारके उदररोग सब
प्रकारके शोथ, विशेष कर अर्शरोग, पाण्डुरोग और
कामलादि रोगोंको नष्ट करता है । इसको विधिपूर्वक
सेवन करनेसे कोई भी रोग अवशेष नही
रहता ॥ २४४-२५५ ॥

साध्यासाध्यविचार ।

जन्मनैवोदरं सर्वं प्रायः कृच्छ्रतमं
स्मृतम् । बलिनस्तदजाताम्बु यत्रा-
त्साध्यं नवोत्थितम् ॥ २५६ ॥ पक्षा-
द्बद्धगुदं तूर्ध्वं सर्वजातोदकं तथा ।
प्रायो भवत्यभावाय छिद्रान्नं चोदरं
नृणाम् ॥ २५७ ॥ शूनाक्षं कुटलोप-
स्थमुपक्लिन्नतनुत्वचम् । बलशोणित-
मांसाग्निपरिक्षीणन्तु वर्जयेत् ॥ २५८ ॥
पार्श्वभङ्गात्रविद्वेषशोथातीसारपीडि-

तम् । विरक्तं चाप्युदरिणं पूर्यमाणं
त्रिवर्जयेत् ॥ २५९ ॥

प्रायः सब प्रकारके उदररोग उत्पन्न होते ही कष्ट-
साध्य होते हैं । उनमें बलवान् मनुष्यके थोड़े दिनोंसे
उत्पन्न हुआ और पानीरहित ऐसा उदररोग कदा-
चिन् वडे प्रयत्नोंसे साध्य हो जाता है । बद्धगुदोदर
पन्द्रह दिनके पश्चात् असाध्य हो जाता है । जिनमें
जल उत्पन्न हो गया हो वे उदररोग सब असाध्य है
और क्षतोदर प्रायः मृत्युके लिये ही उत्पन्न होता है ।
जिसके नेत्रोंमें सूजन आ गई हो लिंग टेढा हो गया
हो उदरकी त्वचा गीलीसी लचलची पतली पडगई
हो बल, मांस, रुधिर और जठराग्नि क्षीण हो गई हो
ऐसा उदररोगी असाध्य जानना । जिसकी पसली
टेढी हो गई हो, अन्नमें अरुचि हो, सूजन और अति-
सार इनमें दुःखित हो तथा विरेचन करानेसे जिसका
पेट फिर पानीसे भर जाय ऐसा उदररोगी त्यागने-
योग्य है ॥ २५६-२५९ ॥

कतिपययोग ।

हरीतकीनागरदेवदारुपुनर्नवाच्छिन्न-
सहाकपायः । सगुग्गुलुर्मूत्रयुतः स-
पेयः शोफोदराणां प्रवरः प्रयोगः २६०

हरड, सोंठ, देवदारु, पुनर्नवा और गिलोय इनके
काथमें गुग्गुलु और गोमूत्र डाल कर पान करनेसे
शोफोदररोग दूर होता है ॥ २६० ॥

पुनर्नवानिम्बपटोलशुण्ठीतिक्तामृ-
तादाव्यभयाकपायः । सर्वाङ्गशो-
थोदरकासशूलश्वासान्वितं पांडुगदं
निहन्ति ॥ २६१ ॥

पुनर्नवा, नीम, पटोलपत्र, सोंठ, कुटकी, गिलोय,
गरुडहलदी और हरड इनका काथ बनाकर पान कर-
नेमें सर्वांगगत सूजन, शोथोदर, र्वासा, शूल, श्वासा
और पांडुगद दूर होता है ॥ २६१ ॥

पुनर्नवां दाव्यभयां गुडचीं पिवेत्स-
मूत्रां महिषाल्ययुक्ताम् । त्वग्दोष-
शोफोदरपांडुरोगस्योल्पसेकोर्ध्वक-
फानयन्ति ॥ २६२ ॥

पुनर्नवा, दारुहलदी, हरड और गिलोय इनके का-
थमें गोमूत्र और गुग्गुलु डालकर पान करनेसे त्वचाके
विकार, शोफोदर, पाण्डुरोग, स्थूलता और मुख ना-
सिकादिसे स्रावका होना, तथा ऊर्ध्वजत्रुगत समस्त
कफरोग नष्ट होते हैं ॥ २६२ ॥

पुराणवारुणी वह्नि व्यूषणं लवणानि
च । चविकाचिरविल्वश्च भस्म चैषां
सुसंस्कृतम् ॥ २६३ ॥ गव्येन मस्तुना
साध्यं भोजयेत् भिषग्वरः । श्वयथूद-
रगुल्मेषु वस्तिसादे च दुस्तर ॥ २६४ ॥

पुरानी इंद्रायन, चीता, त्रिकुटा, पांचों नमक, चव्य
और करज इन सब औषधियोंकी उत्तम विधिसे भस्म
करके गौके घी और दहीके तोडमें पकावे । इसको
सेवन करनेसे, सूजन, गुल्म, उदररोग और दुस्तर
वस्तिशूल नष्ट होता है ॥ २६३ ॥ २६४ ॥

पुराणं पानकं पिष्ट्वा द्विगुणीकृतत-
ण्डुलम् । साधितं तोयक्षीराभ्याम-
भ्यासे पायसन्तु तम् ॥ २६५ ॥ हन्ति
वातोदरं शोथं ग्रहणीपांडुतामपि २६६

पुराने मानकदको पीसकर उसमें दुगुने चावल
मिलाकर जल और दूधमें खीर बनावे । यह खीर
वातोदर, सूजन, संग्रहणी और पाण्डुरोगको नष्ट
करती है ॥ २६५ ॥ २६६ ॥

आर्द्रकघृत ।

नववृतमार्द्रककल्कस्वरसाभ्यां परि-
साधितं च विधिना । श्वयथूदराग्नि-
सादेरभिभूतः पिबेद्भवत्यरोगः २६७ ॥

ननी घी और अदरखका कल्क इन दोनोंको
अदरखके रसमें पकाकर घृतने प्रहण करो । यह घृत-
शोथोदर, मंदाग्नि और सब प्रकारके उदररोगोंको दूर
करता है ॥ २६७ ॥

विल्वादिघृत ।

विल्वाग्निचव्यार्द्रकशृङ्गेरकाथेन क-
ल्केन च सिद्धमाज्यम् । सद्यागदुग्धं

ग्रहणीगदोत्थे शोथाग्रिसादारुचिपु
प्रदिष्टम् ॥ २६८ ॥

वेलगिरी, चीता, चव्य, अदरख और सोंठ इन सब औषधियोंके काथ और कल्कके द्वारा वकरीके दूधमें गौके उत्तम घीको पकावे । यह घृत-संग्रहणी-रोग, सूजन, मंदाग्रि और अरुचिको नष्ट करता है ॥ २६८ ॥

इति श्रीवंगसेने भापाटीकायां उदररोगा-
धिकारः समाप्तः ॥ ४० ॥

अथ शोथरोगाधिकारः ।

रक्तपित्तकफान्वायुर्दुष्टो दुष्टान् बहिः-
शिराः । नीत्वा रुद्धगतिसौर्हि कु-
र्यात्त्वङ्मांससंश्रयम् उत्सेधं संहतं
शोथं तमाहुर्निचयात्मकम् ॥ १ ॥

अपने कारणोंसे कुपित हुई वायु, दुष्ट हुए रक्तपित्त और कफको बाहरकी नसोंमें प्राप्त करके उनकी गति-को रोकदेता है उनके रुकनेसे वह वायु, त्वचा और मांसमें स्थित होकर कठिन और ऊँची सूजनको उत्पन्न करती है । यह सूजन पूर्वोक्त दोषोंके संग्रहसे होती है ॥ १ ॥

सर्वं हेतुविशेषस्तु रूपभेदान्नवात्म-
कम् दोषैः पृथग्द्वयैः सर्वैरभिघाता-
द्विषादपि ॥ २ ॥ तत्पूर्वरूपं द्रव्युः
शिरायामोऽङ्गौरवम् ॥ ३ ॥

यह शोथरोग कारण, विशेष और रूपभेदसे नौ प्रकारका है । इनमें पृथक् २ भेदोंसे तीन, द्वन्द्वज तीन सन्निपातज एक, अभिघातज एक और विपज एक ऐसे नौ प्रकारका है । सूजनके उत्पन्न होनेके पूर्व नसोंका तनना, और जिस अंगमें सूजन उत्पन्न होनेको होती है वह अंग किञ्चित् उन्नत और भारी होजाता है ॥ २ ॥ ३ ॥

शोथरोगका निदान ।

शुद्ध्यामयाऽभक्तकृशाबलानां क्षा-
राम्लतीक्ष्णोष्णगुरूपसेवा । दध्याम-

मृच्छाकाविरोधिदुष्टजरोपसृष्टान्नि-
षेवणञ्च ॥४॥ अर्शास्यचेष्टा न च दे-
हशुद्धिर्मर्मोपघातो विषमा प्रसूतिः ।
मिथ्योपचारः प्रतिकर्मणाश्च निज-
स्य हेतुःश्वयथोः प्रदिष्टः ॥ ५ ॥

वमन, विरेचनादि, ज्वरादि और अभोजन (उपवास या विगुण भोजन) इनसे जो मनुष्य कृश और बलहीन होगये हैं उनको क्षार, अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण, भारी, दही, कच्चे पदार्थ, मृत्तिका, शाक, विरुद्ध, दुष्ट और संयोगज विषयुक्त भोजनका सेवन करना सूजनका कारण होता है । तथा अर्शरोग, निश्चेष्ट रहना शरीरकी अशुद्धता, मर्मस्थानोंमें अभिघातका लगना, असमय गर्भपातादिक तथा वमनादिक मिथ्या उपचार ये सब शोथरोगके कारण हैं ॥ ४ ॥

सामान्य लक्षण ।

सर्गौरवं स्यादनवास्थितत्वं सोत्सेध-
मूष्माऽथ शिरातनुत्वम् । सलोमहर्षश्च
विवर्णता च सामान्यलिङ्गं श्वयथोः
प्रदिष्टम् ॥ ६ ॥

शरीर भारी, चित्तमें व्याकुलता, ऊँची सूजन, दाह, नसै पतली हो, रोमांचोंका होआना और शरीरका रंग बदलजाना ये शोथरोगके सामान्य लक्षण जानने ॥ ६ ॥

वातजशोथके लक्षण ।

चलस्तनुत्वकपरुषोऽरुणोऽसितः सुसु-
प्तिहर्षार्तियुतो निमित्ततः । प्रशाम्य-
ति प्रोन्नमति प्रपीडितो दिवा बली
च श्वयथुः समीरणात् ॥ ७ ॥

वातजशोथ (सूजन) चंचल (चलायमान), त्वचा पतली कर्कश हो, लाल, काली, स्पर्श करनेसे न मालूम हो, रोमांच होआवे, तीव्रपीडा, कदाचित् विना कारण जांत होजाय, कभी बढजाय और दबानेसे नीचेको दबकर फिर उठआवे तथा दिनमें प्रबल हो ॥ ६ ॥

पित्तजशोथके लक्षण ।

मृदुः सगन्धोऽसितपीतरागवान् भ्रम-
ज्वरस्वेदतृषामदान्वितः । य उप्यते
स्पृष्टरुगक्षिरागकृत् स पित्तशोथो भृ-
शदाहपाकवान् ॥ ८ ॥

पित्तकी सूजन-कोमल, गंधयुक्त, काले और पीले
रंगकी, तथा भ्रम, ज्वर, पसीना, तृषा, मद, इनसे
युक्त, उष्णता सहित, स्पर्श करनेसे पीडा, नेत्रोमे
खाली, सूजनमे अत्यन्त दाह और पाकयुक्त होती
है ॥ ८ ॥

कफजशोथके लक्षण ।

गुरुस्थिरः पांडुरोचकान्वितः प्रसेक-
निद्रावमिवहिमान्द्यकृत् । स कृच्छ्रज-
न्मप्रशमो निपीडितो न चोन्नमेद्रा-
त्रिवली कफात्मकः ॥ ९ ॥

कफकी सूजन भारी, स्थिर और पांडुरंगकी होती
है । इसमे अरुचि, मुखसे पानीका निकलना, निद्रा,
वमन, मंदाग्नि, बहुत दिनोंमे उत्पन्न हो और बहुत
दिनोंमे नष्ट हो, दबानेसे ऊपर नहीं उठे और रात्रिमे
बलवान् होती है ॥ ९ ॥

द्वन्द्वज और सन्निपातज
शोथोंके लक्षण ।

निदानाकृतिसंसर्गाच्छ्रयथुः स्याद्वि-
दोषजः । सर्वाकृतिः सन्निपाताच्छो-
थो व्याभिश्चलक्षणः ॥ १० ॥

जिसमे दो दोषोंके लक्षण हो उसको द्विदोषज
सूजन जानना, जिस सूजनमे वात, पित्त, कफ इन
तीनोंके लक्षण मिलते हो उसको सन्निपातकी सूजन
जानना ॥ १० ॥

अभिघातजशोथके लक्षण ।

अभिघातेन शस्त्रादिछेदभेदक्षतादि-
भिः । हिमानिलोदध्यनिलैर्भल्लात-
कपिकच्छुजैः ॥ ११ ॥ रसैः शूकैश्च सं-
स्पर्शाच्छ्रयथुः स्याद्विसर्पवान् । भृ-
शोष्मालोहिताभासः प्रायशः पित्त-
लक्षणः ॥ १२ ॥

लाठी आदिकी चोटके लगनेसे, शस्त्रादिके छिद-
नेभेदनेसे, या फटनेसे अथवा घाव आदिके होनेसे
पहाड़ोमे वर्षके पवनके लगनेसे, भिल्लोके रसके
लगनेसे और कौछकी फलीके या काँटोके स्पर्शसे जो
सूजन उत्पन्न होती है उसको अभिघातज कहते हैं ।
यह चारोंओर फैल जाता है, इसमे दाह अधिक
होती है इसका रंग लाल और इसमे विंशप करके
पित्तके लक्षण मिलते हैं ॥ ११ ॥ १२ ॥

विषजशोथके लक्षण ।

विषजः सविषप्राणिपरिसर्पणमूत्रणा-
त । दंष्ट्रादन्तनखाघातादविषप्राणि-
नामपि ॥ १३ ॥ विण्मूत्रशुक्रोपहत-
मलवद्वलसंकरात् । विषवृक्षानिल-
स्पर्शाद्दरयोगावचूर्णनात् ॥ १४ ॥ मृ-
दुश्चलोऽवलम्बी च शीघ्रदाहरुजा-
करः ।

विपैले प्राणियोंके अंगके स्पर्शसे अथवा उनके
मूत्रके स्पर्शसे, या निर्विष जो मनुष्यादिक उनके
डाढ, दांत, नख इनके लगनेसे अथवा विपैले जीवोंको
मलमूत्र और वीर्यसे सने हुए एवं मलिन ऐसे बखोंके
स्पर्शसे, अथवा विपैले वृक्षोंकी पवनके स्पर्शसे, या
संयोगज विषके शरीरमे लगनेसे जो सूजन उत्पन्न
होती है उसको विषज कहते हैं । यह सूजन-कोमल,
चंचल, नीचेको लटकनेवाली, शीघ्र उत्पन्न होने-
वाली, दाह और पीडाकारक होती है ॥ १३ ॥ १४ ॥

दोषपरत्वसे सूजनका
स्थानान्तरकथन ।

दोषाः श्वयथुमूर्ध्व हि कुर्वन्त्यामाश-
यस्थिताः ॥ १५ ॥ पक्वाशयस्था मध्ये तु
वर्चस्थानगतास्त्वधः । कृत्स्नं देहमनु-
प्राप्ताः कुर्युः सर्वसरं तथा ॥ १६ ॥

आमाशयमे रहनेवाले दोष शरीरके ऊर्ध्वभागमे,
पक्वाशयमे रहनेवाले दोष शरीरके मध्यभागमे और
मलाशयमे रहनेवाले दोष सर्वप्रकारकी सूजनको
उत्पन्न करते हैं ॥ १६ ॥

शोथके कृच्छ्रादिभेद ।

यो मध्यदेशे श्वयथुः सकष्टः सर्वग-
श्च यः । अधोऽङ्गेऽरिष्टभूतः स्याद्य-
श्रोर्ध्वं परिसर्पति ॥ १७ ॥

जो सूजन शरीरके मध्यभागमें स्थित हुई हो
अथवा संपूर्ण शरीरमें उत्पन्न हुई हो वह कष्टसाध्य है ।
जो सूजन नीचेके भागमें उत्पन्न होकर ऊपरको चढ़े
वह अत्यन्त कष्टसाध्य है ॥ १७ ॥

असाध्यलक्षण ।

श्वासः पिपासा छर्दिश्च दौर्बल्यं ज्व-
र एव च । यस्य चात्रेऽरुचिर्नास्ति
श्वयथुं तं विवर्जयेत् ॥ १८ ॥

श्वास, तृषा, वमन, दुर्बलता और ज्वर तथा अन्नमें
अरुचि इन लक्षणोंसे युक्त शोथके रोगियोंको वैद्य
त्याग दे ॥ १८ ॥

अनन्योपद्रवकृतः शोथः पादसमु-
त्थितः । पुरुषं हन्ति नारीश्च मुख-
जो गुदजो द्वयम् ॥ १९ ॥ ऊर्ध्वगा-
मी नरं पद्म्यामधोगामी मुखात्त्रि-
यम् । उभयं वस्तिसंजातः शोथो
हन्ति न संशयः ॥ २० ॥ नवोऽनु-
पद्रवः शोथः साध्योऽसाध्यः पुरे-
रितः ॥ २१ ॥

जो अन्यान्य रोगोंके उपद्रवरूपसे उत्पन्न नहीं हो
अर्थात् जो केवल अपने निदानसे अपने आपही उत्पन्न
हुई हो ऐसी सूजन यदि मनुष्यके पाँवोंमें उत्पन्न
होकर ऊपर जाय तो मनुष्यको मारे और यदि स्त्रीके
मुखसे उत्पन्न होकर पैरोपर जाय तो स्त्रीको मारे ।
एवं जो शोथ केवल अपने निदानसे गुह्यस्थानमें
उत्पन्न होकर अथवा वस्तिस्थानसे उत्पन्न होकर सर्व
शरीरमें फैलजाय वे स्त्री पुरुष दोनों मारे और जो शोथ
नवीन और उपद्रव रहित है वह साध्य है एवं पूर्वोक्त
लक्षणोंवाली असाध्य सूजन जानना ॥ १९ ॥
॥ २० ॥ २१ ॥

आमयुक्तशोथके लक्षण ।

क्षुत्राशो हृदयाशुद्धिस्तन्द्राजठर-
गौरवैः । दोषप्रवृत्तिर्ना यत्र व्याधि-
मामान्वितं वदेत् ॥ २२ ॥

क्षुधाका नाश, हृदयमें अशुद्धता, तन्द्रा, उदरमें
भारिपन और जिसमें दोषोंकी प्रवृत्ति नहीं हो उसको
आमयुक्त शोथ जानना ॥ २२ ॥

शोथकी चिकित्सा ।

पुराणयवशालग्रत्रं दशमूलांबुसाधि-
तम् । अल्पमल्पं पटुस्नेहं भोजनं
श्वयथौ हितम् ॥ २३ ॥

अब अनेक तन्त्रान्तरोंसे शोथरोगकी चिकित्सा
कहते हैं । पुराने जौ और पुराने शालिधान इनको
दशमूलके काथमें शिद्ध करके उसमें थोड़ा नमक और
स्नेह (तेलघृतादि) डाल कर शोथरोगमें भोजनके
लिये देवे ॥ २३ ॥

सप्ताहं माहिषं मूत्रं पयसान्नांबुव-
जितम् । पीत्वा चौष्ट्रमजामूत्रं श्वय-
थूदरनाशनम् ॥ २४ ॥

दूध, अन्न और जलको छोड़कर सात दिनतक भै-
सके मूत्रको पीनेसे अथवा ऊंटनी या बकरीके मूत्रको
पान करनेसे सूजन और उदररोग दूर होता है
॥ २४ ॥

शिशुत्वङ्नक्तमालार्कदाव्यारग्वधमू-
लकैः । गोमूत्रपिष्टैः श्वयथुः प्रलि-
तव्यः कफात्मकः ॥ २५ ॥

साहिजनेकी छाल, करंज, आक, दारुहल्दी और
अमलतास फलका गूदा इनको एकत्र गोमूत्रमें पीस-
कर लेप करनेसे कफकी सूजन दूर होता है ॥ २५ ॥

निदानदोषैस्तु विपर्ययक्रमैरुपाचरे-
द्वै बलकालदोषवित् । यथाऽऽत्मजं
लङ्घनपाचनक्रमैर्विशोधनैरुल्बणदो-
षमादितः ॥ २६ ॥

शोधरागमे रोगीका बलाबल, समय और दापो-
को विचार कर निदान और दोषोंके विपरीत चिकि-
त्सा करनी चाहिए। जैसे कि, आमसंयुक्त शोथमें
लघन और पाचन प्रयोग करने चाहिए और जो
दोषोंकी उल्वणता हो तो शोधन करना चाहिए
॥ २६ ॥

शिरोगतं शीर्षविरेचनेश्च संशोधनैः
शोधयमधस्तथोर्ध्वम् । उपाचरेत्स्नेह-
भवं हि रूक्षणैः प्रकल्पयेत्स्नेहगणैस्तु
रूक्षजम् ॥ २७ ॥

जो शिरोगत शोथ हो तो शिरोविरेचन करना
चाहिये। शोधन योग्य हो तो संशोधक औषधियोंके
द्वारा संशोधन करना चाहिये। ऊर्ध्वगत शोथमें
ऊर्ध्वशोधन और अधोमतः शोथमें अधःशोधन करना
चाहिये। स्नेहजनित शोथमें रूक्षचिकित्सा और
रूक्ष द्रव्योंके सेवन करनेसे उत्पन्न हुए शोथमें स्निग्ध
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २७ ॥

विबद्धविट्केऽनिलजे निरूहणं घृतं
तु पित्तानिलजे सतिक्तकम् । पयश्च
मूर्च्छावतिदाहर्तपिते विशोधनीये
तु समूत्रमिष्यते । कफोत्थितं क्षार-
कटूष्णसंयुतैः समूत्रदुग्धासवयुक्ति-
भिर्हरेत् ॥ २८ ॥

वातजशोथमें जो मलबद्ध होय तो निरूहणवास्ति
देवे और वातपित्तजशोथमें तिक्त औषधियोंके द्वारा
घृतको सिद्ध करके सेवन करावे जो शोथरोगमें
मूर्च्छा, अत्यन्त दाह और तृषा हो तो दूध पिलाना
चाहिए। और शोधनके लिये गोमूत्रके द्वारा शोधन
कराना चाहिए। कफजनित शोथमें क्षार कटु और
उष्णपदार्थोंके साथ गोमूत्र दूध और आसवादिकोंको
सेवन कराना चाहिए ॥ २८ ॥

शोथे वातोत्थिते पूर्वं मासोर्ध्वं त्रि-
घृतं पिबेत् । तैलमैरुण्डजं वापि मल-
बन्धे तदेव तु ॥ २९ ॥

वातजनित सृजनमें पहले एक माहिनं पर्यन्त
निसोथको सेवन करे। और मल बंधा होय तो
अंडीके तलकों पिबे ॥ २९ ॥

शाल्यन्नं पयसा युक्तं रसेर्वापि प्रयो-
जयेत् । स्वेदाभ्यङ्गांश्च वानत्रान्सेक-
लेपांश्च कल्पितान् ॥ ३० ॥

वातजनितशोथमें दूधके साथ चावल और मांस-
रसको सेवन करे तथा वातनाशक औषधियोंके द्वारा
कल्पित करके स्वेददर्म्म, अभ्यंग, सेक और प्रलेप
प्रदान करे ॥ ३० ॥

शुण्ठीपुनर्नवैरुण्डपञ्चमूलशृतं जलम् ।
वातिके श्वथर्थो शस्तं पानाहारपरि-
ग्रहे ॥ ३१ ॥

सांठ, पुनर्नवा, अंडकी जड और पंचमूल इनका
काथ-पान और आहारमें सेवन करना चाहिये ॥ ३१ ॥

न्यग्रोधादिगणे सिद्धं सर्पिः स्यात्पि-
त्तशोथिने । तृणमोहदाहपादस्थे हिम-
लेपादि वाचरेत् ॥ ३२ ॥

पित्तजनितशोथमें न्यग्रोधादि गणकी औषधियोंके
द्वारा घृतको सिद्ध करके सेवन करावे। तथा तृषा,
मोह और पाँवमें दाह हो तो शीतलपदार्थोंका
पाँवोंपर लेपादि करे ॥ ३२ ॥

क्षीराशनः पित्तकृते तु शोथे पिबे-
द्दुडूचीत्रिफलाकषायम् । पिबेद्गवां
मूत्रविमिश्रितं वा फलत्रिकाचूर्णम-
थाक्षमात्रम् ॥ ३३ ॥

पित्तजनितशोथमें दूधको सेवन करनेवाला मनुष्य
गिलोय और त्रिफलेके काथको पान करे अथवा एक
तोले प्रमाण त्रिफलेके चूर्णको लेकर गोमूत्रके साथ
पान करे ॥ ३३ ॥

पटोलत्रिफलारिष्टदार्दीकाथः सगु-
ग्गुलुः । हन्ति पित्तकृतं शोथं तृष्णा-
ज्वरसमन्वितम् ॥ ३४ ॥

पटोलपत्र, त्रिफला, नीमकी छाल और दारुहल्दी
इनके काथमें गुगल डालकर पान करनेसे तृषा और
ज्वर समेत पित्तकी सृजन दूर होती है ॥ ३४ ॥

कफोद्भवे पिबेत्तेलं सिद्धमास्वधादि-
ना । मन्दाग्नौ स्तिमिते कोष्ठे स्रो-
तोरोधे रुजावति ॥ ३५ ॥ क्षारमूत्रा-
सवारिष्टचूर्णतक्राणि योजयेत् ॥ ३६ ॥

कफजनितशोथमे आस्वधादि औषधियोंके द्वारा तेलको सिद्ध करके पानकरे । और शोथरोगमें मन्दाग्नि, कोष्ठबद्ध और स्रोतोंका अवरोध हो तो क्षार, मूत्र, आसव, अरिष्ट, चूर्ण और तक्रादि पदार्थ-प्रयोग करने चाहिएँ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

कफे तु कृष्णासिकतापुराणपिण्या-
कशिष्टत्वगुमाप्रलेपः । कुलित्यशुण्ठी-
जलमूत्रसेकश्चंडागुरुभ्यामनुलेपनं-
च ॥ ३७ ॥

कफजनितशोथमे—पीपल, मिश्री, पुरानी खल, संहिजनेकी छाल और अलसी इनको एकत्र पीसकर प्रलेप करनेसे अथवा कुलथी, सोठ इनको जलमें या गोमूत्रमें पीसकर संचनेसे, अथवा त्रिवलिंगी और अगर इनका लेप करनेसे शोथरोग दूर होता है ॥ ३७ ॥

बर्हानुरूपः स्वरसः सर्षपतैलेन मि-
श्रितः पीतः । पङ्कजपत्रसमुत्थः शो-
थानां नाशनः परमः ॥ ३८ ॥

मोरके मांसके रसको सरसोंके तेलमें मिलाकर पान करनेसे कमलपत्रकी समान उठी हुई सृजन भी शांत होती है ॥ ३८ ॥

पुनर्नवाविश्वत्रिवृद्दुडूचीशम्याकप-
थ्यासुरदारुकल्कम् । शोथे कफोत्थे-
ऽक्षसमं समूत्रं काथं पिबेद्वाप्यथ चै-
व तेषाम् ॥ ३९ ॥

पुनर्नवा, सोठ निसोत, गिलोय, अमलतास, हरड और देवदारु इनका एक तोला प्रमाण कल्क लेकर गोमूत्रके साथ पान करनेसे अथवा उपरोक्त औषधि-योंका काथ बनाकर पान करनेसे कफजनितशोथ दूर होता है ॥ ३९ ॥

व्योषं त्रिवृत्तिककरोहिणी च सायो-
रजः सत्रिफलारसेन । पीताः कफो-

त्थं शमयन्ति शोथं गव्येन मूत्रेण
हरीतकी वा ॥ ४० ॥

त्रिकुटा, निसोत, कुटकी, लोहेका चूर्ण इन सबको एकत्र कूट पीसकर त्रिफलेके काथके साथ अथवा हरडको गोमूत्रके साथ पान करनेसे कफजनित शोथ दूर होता है ॥ ४० ॥

विडङ्गातिविषादारुनागरेन्द्रयवा-
वचाः । उष्णांबुना पिबेच्छोथी ह्यक्ष-
मात्रं सहोषणम् ॥ ४१ ॥

वायविडंग, अतीस, देवदारु, सोठ, इन्द्रजौ, वच एवं कालीमिरच-इनको एकत्र पीसकर गरम जलके साथ एक तोलाभर पान करनेसे कफशोथ नष्ट होता है ॥ ४१ ॥

स्तुक्क्षारभाविताः कृष्णाः पथ्यामू-
त्रेण वा युताः । योजिताः शमयन्त्या-
शु शोथं श्लेष्मभवं नृणाम् ॥ ४२ ॥

थूहरके दूधमें भावना दी हुई पीपलको सेवन कर-नस अथवा गोमूत्रके साथ हरडको सेवन करनेसे कफजनित शोथरोग दूर होता है ॥ ४२ ॥

पुनर्नवादिलेह ।

पुनर्नवाऽमृतादारुदशमूलरसाढके ।
आर्द्रकस्वरसे प्रस्थे गुडस्य च तुलां
पचेत् ॥ ४३ ॥ तत्सिद्धं व्योषच-
व्यैलात्वकपत्रैः कार्षिकैः पृथक् ।
चूर्णीकृतैर्लिहेच्छीते मधुनः कुडवं-
क्षिपेत् ॥ ४४ ॥ लेहः पौनर्नवो ना-
म्ना श्लेष्मशोथनिषूदनः । श्वासका-
सारुचिहरो बलपुष्ट्याग्निवर्द्धनः ॥ ४५ ॥

पुनर्नवा, गिलोय, देवदारु और दशमूल इन सब औषधियोंका काथ एक आढक, अदरखका स्वरसे १ प्रस्थ और गुड १ तुला प्रमाण सबको लेकर उत्तम-विधिसे पकावे । जब पककर सिद्ध हो जाय तब त्रिकुटा, चव्य, इलायची, दालचीनी, तेजपात इन प्रत्येक औषधियोंका चूर्ण एक एक तोला और शीतल होनेपर उत्तम शहद एक कुडव परिमाण मिला देवे । यह पुनर्नवादिलेह कफशोथनाशक, श्वास, खाँसी और अरुचिको दूर करनेवाला तथा बल, पुष्टि और जठराग्नि को बढ़ानेवाला है ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

द्विदोषज और त्रिदोषज शोथकी चिकित्सा ।

मिश्रे मिश्रक्रमं कुर्यात्सर्वजे सर्वमेव
तु ॥ ४६ ॥

द्वन्द्वजशोथमे मिश्रित चिकित्सा करनी चाहिए
और त्रिदोषजशोथमे त्रिदोषनाशक चिकित्सा करनी
चाहिए ॥ ४६ ॥

पिप्पल्यजाजी गजपिप्पली च निद-
ग्धिका नागरचित्रके च । रजन्यथो
पिप्पलिमूलपाठा मुस्तश्च चूर्णं सुख-
तोयपीतम् ॥ ४७ ॥ हन्यात्रिदोषं
चिरजश्च शोथं कल्कोऽथ भूनिम्बम-
होषधाभ्याम् । रसस्तथैवाऽर्द्रकना-
गरस्य पयोऽथ जीर्णं पयसाऽन्नमद्या-
त् ॥ ४८ ॥

पीपल, जीरा, गजपीपल, कटेरी, सोठ, चीता,
हलदी, पीपलामूल, पाठ और नागरमोथा इन प्रत्येक
औषधिको समान भाग लेकर मंदोष्ण जलके साथ
पान करनेसे त्रिदोषजनित और बहुत दिनोंका पुराना
शोथ दूर होता है । अथवा चिरायता और सोठके
कल्कको गरम जलके साथ पान करे । अथवा अदरख
और सोठके रसको पान करे और जीर्ण होनेपर
दूधके साथ भोजन करे तो शोथ नष्ट होता है ॥ ४७ ॥
॥ ४८ ॥

शिलाह्वयश्च त्रिफलारसेन हन्यात्रि-
दोषं श्वयथुं प्रसह्य । तक्रं पिबेद्वा गु-
रुभिन्नवर्चाः सव्योषसौर्वर्चलमाक्षि-
कश्च । विद्वात्सङ्गे पयसा रसैर्वा
प्रागुष्णमद्यादुरुचुकृतैलम् ॥ ४९ ॥

शिलाजीतको त्रिफलेके काथके साथ सेवन कर-
नेसे अत्यन्त बही हुई त्रिदोषज सूजन दूर होती है ।
जो शरीरमें भारीपन और मल पतला हो अर्थात्
दस्त आते हो तो त्रिकुटा, कालानमक और गहद
इनको एकत्र मिलाकर सेवन करे और तक्र पान करे
जो वायु और मलका अवरोध हो तो उपर्युक्त
औषधियोंको दूधके साथ अथवा रसोंके साथ सेवन

करावे और पहले अर्डीके तेल अथवा चूकेके
तेलको गरम करके पीवे ॥ ४९ ॥

बिल्वपत्ररसं पूतं शोषणं श्वयथौ त्रि-
जे । विद्भङ्गे चैव दुर्नाम्नि विदध्या-
त्कामलासु च ॥ ५० ॥

बेलके पत्तोंका रस निकालकर बछमे छानकर
पान करनेसे त्रिदोषजनित सूजन दूर होती है । तथा
यह प्रयोग विद्भंग, बवासीर और कामलामे हित-
कारी है ॥ ५० ॥

शोथे वाऽऽगन्तुजे कुर्यात्सेकलेपा-
दिशीतलम् ॥ ५१ ॥ भल्लातक्या ज-
येच्छोथं सतिला कृष्णमृत्तिका ।
माहिषो नवनीतं वा लेपाद्गन्धं ति-
लान्वितम् ॥ ५२ ॥

आगन्तुकशोथमे गातिल सेक लेपादिक प्रयोग करे ।
तिल और कालीमिर्चीको एकत्र पीसकर प्रलेप करने-
से भिलावेकी सूजन दूर होती है । अथवा भैसके
नैनी घीका प्रलेप करनेसे अथवा तिलोको दूधमें
पीसकर प्रलेप करनेसे भिलावेकी सूजन दूर होती है
॥ ५१ ॥ ५२ ॥

यष्टीदुग्धतिलैर्लेपो नवनीतेन संयुतः ।
शोथमारुष्करं हन्ति चूर्णं सालदल-
स्य च ॥ ५३ ॥

मुलैठी, दूध और तिल इनको एकत्र पीसकर
नैनी घीके साथ मिलाकर लेप करनेसे भिलावेकी
सूजन दूर होती है । अथवा अर्जुनके पत्तोंको एकत्र
दूधमें पीसकर लेप करनेसे भिलावेकी सूजन दूर
होती है ॥ ५३ ॥

महिषीक्षीरसंपिष्टैर्नवनीतसमन्वि-
तैः । भल्लातककृतः शोथस्तिललि-
प्तश्च शाम्यति ॥ ३४ ॥

तिलोंको भैसके दूधमें पीसकर और नैनी घीमें
मिलाकर शरीरपर लेप करनेसे भिलावेकी सूजन दूर
होती है ॥ ५४ ॥

सरूचकप्रलेपस्तु तिलवृक्षोद्भवा मृ-
दा । भल्लातकोत्थं श्वयथुं हन्ति सर्व-
रुजां ध्रुवम् ॥ ५५ ॥

कालानमक आरे तिलके वृक्षकी मिट्टी इनको एकत्र पीसकर प्रलेप करनेसे बहुत दिनोंकी पुरानी भिलावेकी सूजन दूर होता है ॥ ५५ ॥

**विषानिमित्तोत्थेषु शोथेषु विषोक्तः
प्रतीकारः कर्तव्यः ।**

विपजानित शोथमे विपनाशक यत्न करना चाहिए ।

**पथ्यामृताभाङ्गिपुनर्नवाश्रिदावीनि-
शादारुमहौषधानाम् । काथः प्रस-
ह्योदरपाणिपादवक्रस्थितं हन्त्यचि-
रेण शोथम् ॥ ५६ ॥**

हरड़, गिलोय, भारंगी, पुनर्नवा, चीता, दारु-
हल्दी देवदारु और सोठ इनका काथ बना कर पान
करनेसे उदर, हाथ, पाँव और मुखकी सूजन तत्काल
दूर होती है ॥ ५६ ॥

**पुनर्नवामूलकविश्वदारुच्छिन्नोद्भवा-
चित्रकमूलसिद्धाः । रसायवाग्वश्व
पयांसि यूषाः शोथे प्रदेया दशमू-
लगर्भाः ॥ ५७ ॥**

दशमूल, पुनर्नवा, मूली, सोठ, देवदारु, गिलोय
और चित्तकी जड़ इन औषधियोंके द्वारा रस, यवागू,
दूध और घूपकी सिद्ध करके शोथरोगमे प्रयोग
करे ॥ ५७ ॥

**वृश्चिरदेवद्रुमनागरैर्वा दन्तीत्रिवृत्-
त्र्यूषणचित्रकैश्च । पयः सुसिद्धं वि-
धिना निपीतं गतिं परं शोथहरं भि-
षग्भिः ॥ ५८ ॥**

पुनर्नवा, देवदारु, सोठ, दन्ती, त्रिकुटा, निसोत
और चीता इन सब औषधियोंको दूधमें आँटाकर
पान करनेसे सर्व प्रकारका शोथ दूर होता है ॥ ५८ ॥

**क्षीरं शोथहरं दारु वर्षाभूनागरैः शृ-
तम् । पेयं वा चित्रकव्योषत्रिवृदारु-
प्रसाधितम् ॥ ५९ ॥**

देवदारु, पुनर्नवा और सोठ इनको दूधमें आँटा
कर पान करनेसे अथवा चीता, त्रिकुटा, निसोत और
देवदारु इनको दूधमें आँटा कर पान करनेसे सब
प्रकारकी सूजन दूर होती है ॥ ५९ ॥

**विल्वमूलं त्रिकटुकं श्यामा चित्रक-
मेव च । क्षीरमेतैः शृतं पेयं श्वयथो-
र्विनिवारणम् ॥ ६० ॥**

वेलकी जड़, त्रिकुटा, निसोत और चीता इन
सबको समान भाग लेकर दूधमें आँटा कर पान
करनेसे सर्व प्रकारकी सूजन दूर होती है ॥ ६० ॥

**यूषो मूलकशुण्ठीनां शाकं वह्निपुन-
र्नवा । माणकन्दकृता हन्ति यवागूः
शोथमुद्धतम् ॥ ६१ ॥**

मूली और सोठ इनका घूप, चीता और पुनर्न-
वेका शाक और मानकंदकी बनाई हुई यवागू सब
प्रकारकी सूजनको दूर करती है ॥ ६१ ॥

**सेकत्तथार्कवर्षाभूनिम्बकाथेन शोफ-
जित् । गोमूत्रेणापि कुर्वीत सुखोष्णे-
नावसेचनम् ॥ ६२ ॥**

आक, पुनर्नवा और नीम इनका काथ बना कर
उसके द्वारा सेचन करनेसे अथवा मंदोष्ण गोमूत्रके
द्वारा सेवन करनेसे सब प्रकारका शोथ दूर होता
है ॥ ६२ ॥

**उरुबूककरञ्जार्कवर्षाभूनिम्बकैः शृत-
म् । कौष्णं सेकं प्रशंसन्ति शोफे स-
र्वाङ्गमे नृणाम् ॥ ६३ ॥**

अडकी जड़, करंज, आककी जड़, पुनर्नवा और
नीम इनका काथ बनाकर सुहाता २ सेचनेसे सर्वा-
ंगशोथ दूर होता है ॥ ६३ ॥

**पुनर्नवा दारु शुण्ठी सिद्धार्थः शिशुमेव
च । पिष्ट्वा चैवारनालेन प्रलेपः सर्व-
शोथनुत् ॥ ६४ ॥**

पुनर्नवा, देवदारु, सोठ, सरसो और सहिजना
इनको एकत्र कांजीमें पीस कर लेप करनेसे सर्व
प्रकारका शोथ दूर होता है ॥ ६४ ॥

विभीतकानां फलमध्यलेपः सर्वेषु
दाहार्तिहरः प्रदिष्टः । यष्ट्याहमुत्तैः
सकपित्थपत्रैः सचन्दनैस्तत्पिडिकासु
लेपः ॥ ६५ ॥

बहेडेके फलकी मींगको पीसकर लेप करनेसे
सूजनकी दाह और पीडा दूर होती है । और मुलैठी,
नागरमोथा, कथके पत्ते और चन्दन इनको एकत्र
पीसकर प्रलेप करनेसे शोथ और शोथकी पिडिका
दूर होती है ॥ ६५ ॥

रास्नाघृषार्कं त्रिफलाविडङ्गं शिशुत्व-
चो मूषिककर्णिका च । निम्बार्कजो
व्याघ्रनखः समूर्वा सुवर्तिकातिक्त-
करोहिणी च ॥ ६६ ॥ सकाकमा-
चीवृहतीसकृष्णापुनर्नवानागरचित्र-
केश्व । उद्धर्तनं शोथिषु मूत्रपिष्टं श-
स्तं तथा गोसलिलेन सेकः ॥ ६७ ॥

रायसन, वासा, आक, त्रिफला, वायविडंग,
सहिंजेनकी छाल, मूसाकानो, आक, व्याघ्रनख, मूर्वा,
सजी, कुटकी, मकोय, कटाई, पीपल, पुनर्नवा, सोंठ
और चीता इनको एकत्र गोमूत्रमें पीसकर इनका उद्ध-
र्तन करनेसे अथवा गोमूत्रमें पीसकर सेचन करनेसे
सर्वप्रकारका शोथरोग दूर होता है ॥ ६६ ॥ ६७ ॥

शूषणायोरजः क्षारः शोथनुत्रिफ-
लारजः । कटुकायो रजो व्योषत्रिवृ-
द्विर्वा समन्वितम् ॥ ६८ ॥

त्रिकुटा, लोहेका चूर्ण, जवारवार और त्रिफलेका
चूर्ण इनको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे शोथरोग
दूर होता है । अथवा कुटकी, लोहेका चूर्ण, त्रिकुटा
और निमोत इनके चूर्णको एकत्र सेवन करनेसे सब
प्रकारका शोथ दूर होता है ॥ ६८ ॥

पुरा मूत्रेण सेव्यश्च पिप्पली वा प-
योऽन्यिता । गुडेन वाऽभयातुल्या वि-
शा वा शोथरोगिभिः ॥ ६९ ॥

गुणको गोमूत्रके साथ सेवन करनेसे, अथवा
पीपली के चूर्णके साथ सेवन करनेसे या गुडेके साथ

हरडको किंवा सोंठको सेवन करनेसे सब प्रकारका
शोथरोग दूर होता है ॥ ६९ ॥

दारुगुग्गुलुशुण्ठीनां कल्को मूत्रेण
शोथजित् । वर्षाभूशृङ्गवेराभ्यां कल्को
वा सर्वशोथजित् ॥ ७० ॥

देवदारु, गुगल और सोंठ इनका गोमूत्रमें कल्क
वनाकर सेवन करनेसे शोथरोग दूर होता है । अथवा
पुनर्नवा और अदरख इनका गोमूत्रके द्वारा कल्क
वनाकर सेवन करनेसे सब प्रकारका शोथरोग दूर
होता है ॥ ७० ॥

गोमूत्रस्य प्रयोगो वा शीघ्रं श्वयथु-
नाशनः । कल्को वा गिरिकर्ण्याश्च
पीतः शोथविनाशनः ॥ ७१ ॥

अथवा केवल गोमूत्रको ही सेवन करनेसे शोथरोग
दूर होता है अथवा नीली विष्णुकान्ताके कल्कको पान
करनेसे सब प्रकारका शोथरोग नष्ट होता है ॥ ७१ ॥

पिवेदुष्णांशुना दारुपथ्याशुण्ठीपुन-
र्नवाः । विडङ्गातिविषावासाविश्व-
दारुकणान्विताः ॥ ७२ ॥

देवदारु, हरड, पुनर्नवा, वायविडंग अतीस, वासा,
सोंठ, दारुहल्दी और पीपल इनको एकत्र पीसकर गर-
मजलके साथ पान करनेसे सब प्रकारका शोथरोग
दूर होता है ॥ ७२ ॥

विडङ्गदन्तीकटुकात्रिवृच्चित्रकदारु-
णाः । व्योषेभकृष्णात्रिफलाः समा
देया ह्ययोरजः । द्विशुणन्तु पिवेच्चूर्णं
पयसा शोथशान्तये ॥ ७३ ॥

वायविडंग, दन्ती, कुटकी, निसोत, चीता, देवदारु,
त्रिकुटा, गजपीपल और त्रिफला ये प्रत्येक औषधि
समान भाग लेवे, लोहेका चूर्ण सबसे दुगुना लेवे,
सबको एकत्र कुट पीसकर चूर्ण कर लेवे । इस चूर्णको
दूधके साथ पान करनेसे शोथरोग शांत होता है ॥ ७३ ॥

सितपुनर्नवामूलं पीतश्च गोसलिलेन
निहन्ति । शोथं सर्वसमुत्थमुद्राणि
च दुस्तराण्यचिरात् ॥ ७४ ॥

सफेद पुनर्नवेकी जडको गोमूत्रके साथ पान करनेसे बहुत शीघ्र सर्व प्रकारका शोथ और विशेष कर उदरशोथ दूर होता है ॥ ७४ ॥

मानामण्ड ।

पुराणं मानकं पिष्ट्वा द्विगुणीकृततंडुलम् । साधितं क्षीरतोयाभ्यामभ्यसेत्पायसन्तु तत् ॥ ७५ ॥ इति वातोदरं शोथं ग्रहणीं पांडुतामपि । सिद्धो भिषग्भिराख्यातः प्रयोगोऽयं निरत्ययः ॥ ७६ ॥

पुराना मानकं लेकर उसको पीसलेवे फिर उसमें दुगुने चावल डालकर दूध और जलके द्वारा पकावे । इस खीरको सेवन करनेसे—वातोदर, शोथ, संग्रहणी, पांडुरोग और विशेषकर सर्व शोथ नष्ट होते हैं ॥ ७५ ॥ ७६ ॥

सुसाध्यं वज्रकन्देन पायसं यौति मानवः । युक्तं कोशाम्रतैलेन तेनाभ्यङ्गं प्रकुर्वतः । शोथः प्रशान्तिमायाति बहुदुष्टं निरन्तरम् ॥ ७७ ॥

वज्रकंदको पीसकर दूधमें पकाकर खीर बनावे । उस खीरको कोशाम्रके तैलमें मिलाकर मालिस करनेसे बहुत दिनोंके पुरानी अत्यन्त दुष्ट सूजन दूर होती है ॥ ७७ ॥

आर्द्रकं सगुडं खादेत्प्रकुञ्चार्द्धविवर्द्धितम् । यावत्पञ्चपलं सुहृयूषक्षीररसाशिनः ॥ ७८ ॥ श्वयथुं गुल्ममुदरं कासं श्वासमरोचकम् । पीनसं पांडुदुर्नामहद्रोगञ्च विनाशयेत् ॥ ७९ ॥

अदरखको गुडमें मिलाकर नित्य दो तोला बढाकर सेवन करे । इस प्रकार पांच पल पर्यन्त सेवन करे । इसपर मूंगका थूप दूध और मांसरस इनको भोजन करे । इससे—सूजन, गुल्म, उदररोग, खाँसी श्वास, अरुचि, पीनस, पांडुरोग और हृदयरोग दूर होता है ॥ ७८ ॥ ७९ ॥

गुडाद्रकं वा गुडनागरं वा गुडाभयां वा गुडपिप्पलीं वा । कर्षाभिवृद्ध्या त्रिपलप्रमाणं खादेन्नरः पक्षमथापि

मासम् ॥ ८० ॥ शोथप्रतिश्यायगलास्यरोगान् सश्वासकासारुचिपीनसादीन् । जीर्णज्वराशौं ग्रहणीविकारान् हन्यात्तथान्यान्यकफवातरोगान् ॥ ८१ ॥

गुडको अदरखके साथ, अथवा गुडको सोंठके साथ, या गुडको हरडके साथ, किंवा गुडको पीपलके साथ एक तोलेसे लेकर अपने बलानुसार तीन पल प्रमाण एक पक्ष अथवा एक महीनेतक सेवन करनेसे शोथ, प्रतिश्याय, गलरोग, मुखरोग, श्वास, खाँसी, अरुचि, पीनस, जीर्णज्वर, बवासीर, संग्रहणी और अन्यान्य कफजनित रोग दूर होते हैं ॥ ८० ॥ ८१ ॥

आर्द्रकस्य रसः पीतः पुराणगुडमिश्रितः । अजाक्षीराशिनां शीघ्रं सर्वशोथहरो भवेत् ॥ ८२ ॥

अदरखके रसमें पुराने गुडको मिलाकर सेवन करे और ऊपरसे बकरीके दूधको पान करे तो सर्वप्रकारका शोथ दूर होता है ॥ ८२ ॥

भूनिम्बविश्वकल्कं भुक्त्वा पेयः पुनर्नवाक्काथः । अपहरति नियतमाशु श्वयथुं सर्वाङ्गजं नृणाम् ॥ ८३ ॥

चिरायता और सोंठ इनके कल्कको भक्षण करके पश्चात् ऊपरसे पुनर्नवेके काथको पान करनेसे सर्वांगत सूजन दूर होती है ॥ ८३ ॥

विश्वं गुडेन तुल्यं वृश्चीवरसानुमानमभ्यस्तम् । विनिहन्ति सर्वशोथं घनवृन्दं चण्डवायुरिव ॥ ८४ ॥

सोंठ और गुडको समान भाग लेकर एकत्र मिलाकर भक्षण करे और ऊपरसे पुनर्नवेके स्वरसको पीव इससे सब प्रकारका शोथ दूर हो जाता है । जिस प्रकार प्रचण्ड पवनसे बादलोका समूह नष्ट होजाता है ॥ ८४ ॥

गुडचूर्ण ।

गुडपिप्पलिशुण्ठीनां चूर्णं श्वयथुनाशनम् । आमाजीर्णप्रशमनं शूलघ्नं वरितशोधनम् ॥ ८५ ॥

गुड, पीपल और सोठ इनका एकत्र चूर्ण करके सेवन करनेसे सब प्रकारका शोथ, आमार्जाण और शूल नष्ट होता है और बस्तिगुद्ध होती है ॥ ८५ ॥

द्वितीयगुडचूर्ण ।

गुडात्पलत्रयं ग्राह्यं शृङ्गवेरफलत्रय-
म् । शृङ्गवेरसमा कृष्णा लोहाविद्-
भस्मनः पलम् ॥ एतच्चूर्णं समुद्दिष्टं
सर्वश्वयथुनाशनम् ॥ ८६ ॥

गुड १२ ताले, अदरख १२ तोले, पीपल १२ ताले
और मंड़रकी भस्म ४ तोले इन सबको एकत्र मिला
कर सेवन करनेसे सब प्रकारका शोथ नाश होता है
॥ ८६ ॥

पुनर्नवाद्यचूर्ण ।

पुनर्नवा दार्व्यमृता पाठा विश्वं श्वदं-
ष्टिका । रजन्यो द्वौ बृहत्यो च पिप्प-
ल्याश्चित्रकं विषम् ॥ ८७ ॥ समभा-
गानि संचूर्ण्य गवां मूत्रेण वा पि-
बेत् । बहुप्रकारं श्वयथुं सर्वगात्रप्रसा-
रिणम् । हन्ति चैवोदराण्यष्टौ व्रणां-
श्चैवोद्धतानपि ॥ ८८ ॥

पुनर्नवा, दारुहलदी, गिलोय, पाठ, सोठ, गोखुरु,
दोनो हलदी, कटेरी, बन्दी कटेरी, पीपल, चीता और
अतीस, इन सब औषधियोंको समानभाग लेकर
चूर्ण करके गोमूत्रके साथ पान करनेसे बहुत प्रकार-
की सूजन, सब शरीरमें फैलनेवाली सूजन, आठों
प्रकारके उदररोग और अत्यन्त बड़े हुए व्रण दूर होते
हैं ॥ ८७ ॥ ८८ ॥

सिंहास्यामृतभाण्डाकीकाथं कृत्वा
समाक्षिकम् । पीत्वा शोथं जयेज्ज-
न्तुः श्वासं कासं ज्वरं वमिम् ॥ ८९ ॥

वासा, गिलोय और कटेरी इनका काथ बनाकर
उसमें शहद डालकर पान करनेसे सब प्रकारका
शोथ, ज्वास, खांसी, ज्वर और वमन दूर होते हैं
॥ ८९ ॥

गोमूत्रमंड़र ।

गोमूत्रसिद्धं मंड़रं सुरभीरसभावि-
तम् । माणकार्द्रककन्दानां रसेष्वपि

च भावयेत् ॥ ९० ॥ त्रिफलाव्योष-
चव्यानां चूर्णं पाणितलद्वयम् । क्षि-
पेत्सुसिद्धे पाके च मधुनश्च पलद्व-
यम् ॥ ९१ ॥ निहन्ति सर्वजं शोथं
सर्वाङ्गश्च विशेषतः ॥ ९२ ॥

मण्डरको गोमूत्रमें सिद्ध करके गोमूत्रमें भावना
देवे, पश्चात् मानकंद, अदरख और जमीकंदके रसमें
भावना देवे, फिर उसमें त्रिफला, त्रिकुटा और चन्द
इन प्रत्येकका चूर्ण दो दो ताल प्रमाण डालकर
उत्तमविधिसे पकावे । जब पककर म्वयं शीतल
होजाय तब इसमें शहत ८ तोले मिला देवे यह सर्वांग
शोथको नष्ट करता है ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥

अत्र गोमूत्रसिद्धं लोहमयं चूर्णं
माणकार्द्रकरसैरातपे परिभाव्य ।
त्रिफलादिचूर्णं द्विगुणमूत्रे पक्तव्यम् ।

यहां गोमूत्रमें सिद्ध किये हुए लोहके मण्डरको
लेकर मानकंद और अदरखके रसके द्वारा धूपमें
भावना देनी चाहिए और त्रिफलादि औषधियोंके
चूर्णको दुगुने गोमूत्रमें पकाना चाहिए ।

पुनर्नवाद्य घृत ।

पुनर्नवापत्ररसालमूलं संक्षुद्य तोया-
र्मणशेषसिद्धम् । चतुर्थभागेन घृतं
विपक्वं प्रस्थं तु तत्कल्कपलाष्टकेन ॥
॥ ९३ ॥ संसेवितं वातबलासरोगा-
न्सर्वाश्च शोथानपि दुस्तरांश्च । गु-
ल्मोदरप्लीहगुदोद्धवांश्च निहन्ति व-
ह्निं कुरुते हि पुंसाम् ॥ ९४ ॥

पुनर्नवेके पत्ते और आमकी जड़को कूटकर एक
द्रोण जलमें पकावे, जब पकते पकते जल चौथाई
भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेवे । फिर
उसमें एक प्रस्थ घी, पुनर्नवा और आमकी जड़का
कल्क ३२ तोले डालकर विधिपूर्वक घृतको सिद्ध
करे । यह घृत—सर्वप्रकारके वातकफके रोग, विशेष
करके शोथ, गुल्म, उदररोग, प्लीहा और गुदाके
रोगोंको दूर करता है तथा आग्निको दीपन करता है
॥ ९३ ॥ ९४ ॥

द्वितीयपुनर्नवादिघृत ।

पुनर्नवाचित्रकदेवदारुवचोषणक्षार-
हरीतकीनाम् । कल्केन पक्वं दशमू-
लतोये घृतोत्तमं शोधनिषूदनं स्या-
त् ॥ ९५ ॥

पुनर्नवा, चीता, देवदारु, वच, मिरच, जवाखार
और हरड इनके कल्कद्वारा दशमूलके काथमं घृतको
पकावे । यह उत्तम घृत-सर्व प्रकारके शोधको
अवश्य नष्ट कर देता है ॥ ९५ ॥

चित्रकादिघृत ।

सचित्रकाधान्यवानिपाठासदीप्य-
कारूपणवेतसाम्लाः । विश्वोत्पलं
दाडिमयावंशूकं सपिप्पलीमूलमथा-
पि चव्यम् ॥ ९६ ॥ पिष्ट्वाऽक्षमात्राणि
जलाढकेन पक्त्वा घृतप्रस्थमथोपयु-
ञ्चात् । अर्शांसि गुल्मं श्वयथुश्च कृ-
त्स्नं निहन्ति वह्निं कुरुते च दीप्त-
म् ॥ ९७ ॥

चीता, धनियाँ, अजवायन, पाढ, अजमोद,
त्रिकुटा, अमलवेत, सोठ, कमल, अनारदाना, जवा-
खार, पीपलामूल और चव्य ये प्रत्येक औषधि दो
२ तोले प्रमाण लेकर एक आढक जलमे पीस-
कर पकावे और उसमें एक प्रस्थ घृत डाले । जब
पकते पकते केवल घृतमात्र अवशेष रह जाय तब
उतार लेवे । इस घृतको सेवन करनेसे बवासीर,
गुल्म और अत्यन्त बढ़ा हुआ शोथ रोग गमन
होता है तथा अग्नि अत्यन्त दीपन होती
है ॥ ९६ ॥ ९७ ॥

द्वितीयचित्रकघृत ।

क्षीरं घटे चित्रककल्कलिते दध्यागतं
साधु विमथ्य तेन । तज्जं घृतं चित्र-
कमूलगर्भं तत्रेण सिद्धं श्वयथुघ्नमुग्रम् ।
अर्शोऽतिसारानिलगुल्ममेहांस्तद्धन्ति
सम्बर्धयते च वह्निम् ॥ ९८ ॥

चीतेका कल्क बनाकर एक घडेमें लेप कर देवे
पश्चात् उस घडेमें दूध भरकर दही जमावे । पश्चात्

उस दहीको मथ लेवे । उसमेंसे जो घृत निकले
उसको ग्रहण कर ले उस घृतको चीतेकी जड़की
कल्कमे और उसी तक्रमे पकावे । यह घृत-उग्रसूजन,
बवासीर, अतिसार, वातगुल्म और प्रमेहको नष्ट
करता है और अग्निको बढ़ाता है ॥ ९८ ॥

माणकघृत ।

माणककाथकल्काभ्यां घृतप्रस्थं वि-
पाचयेत् । एकजं द्वन्द्वजं शोथं त्रिदो-
षश्च व्यपोहति ॥ ९९ ॥

मानकंदके कल्क और काथके द्वारा एक प्रस्थ
घृतको पकावे । यह घृत-एकज, द्विदोषज और त्रिदो-
षज शोधको भी नष्ट करता है ॥ ९९ ॥

स्थलपद्मकादिघृत ।

स्थलपद्मपलान्यष्टौ ऽूषणस्य चतु-
ष्पलम् । घृतप्रस्थं पचेदेतैर्दत्त्वा क्षीरं
चतुर्गुणम् ॥ पञ्चकासान्हरेच्छीघ्रं शो-
थञ्चैतत्सुदुस्तरम् ॥ १०० ॥

स्थलकमल ८ पल, त्रिकुटा ४ पल, गौका उत्तम
धी १ प्रस्थ और उत्तम गौका दूध ४ प्रस्थ लेवे । इन
सबको एकत्र मिला कर उत्तम विधिसे घृतको सिद्ध
करे । यह घृत-शीघ्र ही पॉचो प्रकारकी खाँसी और
दुस्तर शोधको नष्ट करता है ॥ १०० ॥

पञ्चकोलकघृत ।

रसेन विपचेत्सर्पिः पञ्चकोलकुलित्य-
योः । पुनर्नवायाः कल्कोन तत्परं शो-
थनाशनम् ॥ १०१ ॥

पंचकोल और कुलथीके काथमे और पुनर्नवेके
कल्कमे घृतको पकावे । यह घृत-शोधको नष्ट करता
है ॥ १०१ ॥

शुष्कमूलकादि तैल ।

शुष्कमूलकवर्षाभूदारुरास्त्रामहौष-
धैः । पक्कमभ्यञ्जनं तैलं समूलं शोथ-
नाशनम् ॥ १०२ ॥

सूखीमूली, पुनर्नवा, देवदारु, रायसन और सोठ
इनके कल्क और काथके द्वारा तैलको पकावे । इस

तेलको मालिश करनेसे सर्व प्रकारका शोथ दूर होता है ॥ १०२ ॥

वेतसादिप्रदेह ।

सवेतसाः क्षीरवतां द्रुमाणां त्वचः
समञ्जिष्ठलतामृणालाः । सचन्दनं
पद्मकवालकौ च पेत्ते प्रदेहस्तु सतै-
लपाकः ॥ १०३ ॥

वेत, वड, गूलर, पीपल, पिलखन और पारिस, पीपल इन पाँच क्षीरवृक्षोंकी छाल, मजीठ, कमलकी नाल, चन्दन, पद्मास और सुगंधवाला इन औषधियोंको तेलमें पका कर पित्तजशोथपर प्रलेप करे ॥ १०३ ॥

यवादि तैल ।

यवान्कुलित्यान्कोलांश्च दशमूलञ्च
साधयेत् । एतत्कषाये विपचेत्तैलं क्षी-
रचतुर्गुणम् ॥ १०४ ॥ शतावरीजी-
वनीर्यैः पिष्टैः समधुशिशुभिः । पा-
नाभ्यङ्गाज्यत्याशु श्वयथुं मारुतो-
खणम् ॥ १०५ ॥

जौ, कुलथी, वेर और दशमूलकी समस्त औषधियों इन सबको लेकर चौगुने जलमें पकावे । जब पकते पकते जल चौथाई भाग बाकी रह जाय तब उतार कर छान लेवे । फिर इस काथमें उत्तम तिलोंका तेल १ प्रस्थ, गौका दूध ४ प्रस्थ, तथा गतावर, जीवनीयगणकी औषधियों और लाल सहिजना इन प्रत्येकका कलक दो दो तोले डाल कर उत्तमविधिसे तेलको पकावे । इस तेलको पान और अभ्यंग कर्ममें प्रयोग करनेसे वातोत्खणशोथ दूर होता है ॥ १०४ ॥ ॥ १०५ ॥

शैलादि तैल ।

शैलेयकुष्ठाऽगुरुदारुकौन्तीत्वक्पद्म-
कोलांबुशटीसमुस्तैः । त्रिपुण्ड्रस्यौणे-
यकेहममांसीतालीशपत्राऽपरपत्रधा-
न्यैः ॥ १०६ ॥ श्रीवेष्टकं ध्यामकपि-
प्लीभिः पृक्कानखैश्चैव यथोपलाभ-
म् । वातोत्थितेऽभ्यङ्गमुशान्ति तैलं
सिद्धं सुपिष्टरपि च प्रदेहम् ॥ १०७ ॥

भूरिछरीला, कूठ, अगर, देवदारु, रेणुका, दाल-
चीनी, कमल, वेर सुगंधवाला, कचूर, नागरमोथा,
फूलप्रियंगु, थुनेर चोक, वालछड, तालीशपत्र, तैज-
पत्र, धनिर्यो, लोवान, सुगंधतृण, पीपल असवरग
और सुगंधनख इनके कल्कके द्वारा तेलको पकावे ।
इस तेलकी मालिश करनेसे अथवा शरीर पर इन
औषधियोंको पीस कर लेप करनेसे वातज शोथ दूर
होता है ॥ १०६ ॥ १०७ ॥

पञ्चमूलादि तैल ।

पञ्चमूलं सलवणं सरलं देवदारु च ।
हस्तिकर्णपलाशस्य फलानि निचु-
लस्य च ॥ १० ॥ पलाशं काकना-
सा च गुडूचीदेवपुष्पकम् । अहिंस्त्रा-
श्रेयसीहिंस्त्रावत्सगन्धापुनर्नवाः १०९ ॥
कायस्था च वयस्था च दारुको ज-
टिला जटा । अलंबुषोरुबूकश्च प्रपुत्रा-
टं सनागरम् ॥ ११० ॥ शिशुगोधाव-
तीभाङ्गीतर्कारीपौष्करीजटाः । एतैः
सिद्धं यथालाभं तैलमभ्यञ्जनैस्त्रिभिः
॥ १११ ॥ निहन्त्युदीर्णं श्वयथुं जन्तो-
र्वातकफात्मकम् ॥ ११२ ॥

पंचमूल, सैधानमक, धूपसरल, देवदारु, हस्तिकर्ण
पलाशके फल, समुद्रफल, ढाक, कौआठोडी, गिल्लोय,
लौंग, काकादनी, हरड, हींग, अजगंधां, पुनर्नवा,
आमले, इलायची, पीलादेवदारु, वालछड, काँछ,
मजीठ, अडकी जड, पमाड, सोंठ, सहिजना, हंस-
पदौलता, भारंगी, अरणी और पोहकरमूल इन सब
औषधियोंमेंसे जितनी मिल सकें उतनी लेकर इनके
काथ और कल्कके द्वारा तेलको पकावे । यह तेल-
मालिश करनेसे तीन दिनमें अत्यन्त बढे हुए और
वातकफसे उत्पन्न हुए शोथको नष्ट करदेता है ॥ १०८ ॥
॥ १०९ ॥ ११० ॥ १११ ॥ ११२ ॥

कंसहरीतकी ।

द्विपञ्चमूलस्य पचेत्कषाये कंसेऽभया-
नाश्च शतं गुडाञ्च । लिहेत्सुसिद्धे च-
विनीय-चूर्ण-व्योषं त्रिसौगन्ध्यमुप-
स्थिते च ॥ ११३ ॥ प्रस्थाद्धमात्रं

मधुनः सुशीते किञ्चिच्च चूर्णादपि
यावशूकात् । एकाभयां प्राश्य ततश्च
लेहाच्छक्तिं निहन्ति श्वयथुं प्रवृद्धम् ॥
॥ ११४ ॥ श्वासज्वरारोचकमेहगुल्म-
प्लीहांस्त्रिदोषोदरपाण्डुरोगान् । का-
श्यामवातावसृगम्लपित्तं वैवर्ण्यमू-
त्रानिलशुक्रदोषान् ॥ ११५ ॥

दशमूलकी दशो औषधियाँ ५ सेर, उत्तम और
बडी हरडें सौ, पाकके लिये जल २६ सेर, शेष ५
सेर । फिर इस क्वाथको छानकर इसमे ५सेर पुराना
गुड मिलाकर और उन सीजी हुई हरडोकी गुठली
निकालकर इसमें मिलादेवे । तत्पश्चात् विधिपूर्वक
इसको मृत्तिकाके पात्रमे पकावे । जब पाक समाप्त
होजाय तब पीपल, सोठ, मिरच, दालचीनी, इला-
यची, नागकेशर और तेजपात इन प्रत्येकका चूर्ण
एक २ पल मिला देवे । शीतल होनेपर ३२ तोले शहद
और एक तोला जवाखारका चूर्ण मिला देवे । प्रति-
दिन प्रातःकाल उठकर एक हरड और दो तोले अव-
लेह भक्षण करे । यह अवलेह—अत्यन्त बड़े हुए शोथ,
श्वास, ज्वर, अरुचि, प्रमेह, गुल्म, प्लीहा, त्रिदोषज,
उदररोग, पाण्डुरोग, कृशता, आमवात, रक्तपित्त,
अम्लपित्त, विवर्णता, सूत्ररोग, वातरोग और शुक्रके
दोषोको दूर करता है ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ ११५ ॥

किञ्चिच्च कर्षपर्यायः शुक्तिरर्द्धपलं
मतम् । निदध्यान्मधुनो मानं व्यो-
षधिर्मिश्रितस्य च ॥ ११६ ॥ दश-
मूल्या हरीतक्या तुल्यं कंसहरीत-
की । मानं तेनात्र तत्रत्यं चरके प्राह
जेजटः ॥ ११७ ॥

किञ्चित् यह कर्षका पर्याय है और आधे पल
अर्थात् दो तोलेको शुक्ति कहते हैं । यहां व्योषाद्य
औषधियाँ मधुकी समान लेनी चाहिए दशमूलकी
औषधियाँ और हरड समान भाग लेनी चाहिए ॥
॥ १६ ॥ १७ ॥

दशमूलहरीतकी ।

दशमूलीकषायस्य कंसे पथ्याशतं
गुहात् । तुला पचेद्धने दद्याद्योषक्षा-

रचतुप्पलम् ॥ ११८ ॥ त्रिजातकं
सुचूर्णांशं प्रस्थार्धं मधुना लिहेत् ।
दशमूलीहरितक्यः शोथं घ्नन्ति सुदु-
स्तरम् ॥ ११९ ॥ ज्वरारोचकगुल्मा-
शोमेहपांडूदरामयान् । श्वासका-
श्यामवाताऽम्लपित्तं वद्वेश्च मन्द-
ताम् ॥ १२० ॥

दशमूलके १०२४ तोले काथमे १०० हरडोंको
पकावे और पकते समय एक तुला प्रमाण गुड डाल
देवे जब पककर गाढ़ा होजाय तब त्रिकुटा और जवा-
खारका चूर्ण ४ पल तथा त्रिजातकका चूर्ण ४ तोले
और शहद ३२ तोले मिलावे । यह दशमूल हरीतकी
दुस्तर शोथको दूर करनेवाली तथा ज्वर, अरुचि,
गुल्म, अर्श, प्रमेह, पाण्डुरोग, उदररोग श्वास,
कृशता, आमवात, अम्लपित्त और अग्निकी मंदताको
नष्ट करनेवाली है ॥ ११८ ॥ ११९ ॥ १२० ॥

“यथा दोषश्च तीक्ष्णानि वमनानि
विरेचनानुवासनान्यजस्रमुपसेवत ।
शिराभिश्चाभीक्षणं शोणितमवसेच-
येदन्यत्र पांडुशोथादिभिरिति” ।

शोथरोगमें यथादोषानुसार तीक्ष्ण वमन, विरेचन
और अनुवासनवस्ति निरंतर सेवन करे तथा शिरामो-
क्षण, रुधिरनिकलवाना इत्यादि ये सब उपचार
पाण्डु- रोग और शोथादिकोमे करने चाहिये ॥

पथ्यापथ्य ।

पुराणयवशाल्यन्नं दशमूलोपसाधि-
तम् । अल्पमल्पं पटुस्नेहभोजनं शो-
थिने हितम् ॥ १२१ ॥ पिष्टान्नमम्लं
लवणानि मद्यं मृदं दिवास्वप्नमजा-
ङ्गलश्च । पयो गुडं तैलमथो गुरूणि
शोथं जिवांसुः परिवर्जयेत् ॥ १२२ ॥

दशमूलकी औषधियोंके काथमे सिद्ध किये हुए
पुराने जौ और शालिचावलोंका भात इनमे थोडा २
नमक और घृत डालकर शोथरोगीको भोजनेके लिए
देवे उडदीके पिट्टीके बने अन्न (पकात्र मिष्टान्न

खटाई, नमक, मदिरा, मट्टी, दिनमें सोना, अनूपदेशके जीवोका मांस, गुड, दूध, तैल और अन्यान्य समस्त भारी पदार्थ शोथरोगी त्याग देवे ॥ १२१॥ १२२॥

त्रिकुटादिलोह ।

त्रिकटु त्रिफला दन्ती विडङ्ग कटुका तथा । चित्रको. देवदारुश्च त्रिवृच्च गजपिप्पली ॥ १२३ ॥ चूर्णान्येतानि तुल्यानि द्विगुणं स्यादयोरजः ॥ क्षीरेण पीतमेतत्तु श्रेष्ठं श्वयथुनाशनम् ॥ १२४ ॥

त्रिकुटा, त्रिफला, दन्ति, वायविडंग, कुटकी, चीता, देवदारु, निसोत और गजपीपल ये सब औषधि समान भाग इन सबसे दुगुना लोहेका चूर्ण लेवे सबको एकत्र मिलाकर दूधके साथ सेवन करनेसे—सर्व प्रकारकी सूजन दूर होती है ॥ १२३ ॥ १२४ ॥

शोथोदरलोह ।

पुनर्नवामृतावाह्निगवाक्षीमाणशिशु-
काः । सूर्य्यावर्त्तकमूलञ्च पृथगष्टपलं
जले ॥ १२५ ॥ पादशेषे शृते द्रोणे
सुपूते वस्त्रगालिते । विधिवत्पाचितं
पूतं योज्यञ्च पुटनक्रमैः ॥ १२६ ॥
लोहचूर्णाष्टपलकं पचेत्ताम्रादिपात्र-
के । अर्कस्य द्विपलं क्षीरं स्नुहीक्षीरं
चतुष्पलम् ॥ १२७ ॥ पलद्वयं कौशि-
कस्य गन्धकस्य पलं तथा । पलार्धं
पारदं तत्र विधिवच्छोधितं क्षिपेत् ॥
॥ १२८ ॥ सिद्धेऽवतारिते चूर्णं वक्ष्य-
माणं निधापयेत् । कंकुष्ठवह्निकं द-
न्ती गवाक्ष्या खण्डकर्णजम् ॥ १२९ ॥
पलाशस्य च बीजानि कञ्जुकी ताल-
मूलिका । त्रिफला वा कृमिरिपुस्त्रि-
वृद्धन्तीभवं तथा ॥ १३० ॥ सूर्य्याव-

र्तगवाक्षश्च वर्षाभूवज्रवल्लिजम् । एषां
लोहसमा मात्रा भाण्डे स्निग्धे सुगो-
पिते ॥ १३१ ॥ संस्थापिते ततः शु-
द्धौ सुयोगादस्य सर्वशः । उदराणि
पाण्डुरोगाश्च कामला सहलीमका ॥
॥ १३२ ॥ अशौं भगन्दरं कुष्ठं कृमिः
शूलं तथैव च । ये चान्ये विविधा
रोगाश्चिरकालानुबन्धिनः ॥ १३३ ॥
ते सर्वे नाशमायान्ति प्रयोगादस्य
सर्वशः । नातः परतरं किञ्चिच्छोथो-
दरविनाशनम् ॥ १३४ ॥

पुनर्नवा, गिलोय, चीता, इन्द्रायन, मानकन्द, सिंहजना और हुलहुलकी जड ये प्रत्येक औषधि आठ आठ पल लेकर एकद्रोण जलमें पकावे जब पकते पकते जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उतार कर छान लेवे । फिर उस काथमें विधिपूर्वक पुटपाक किया हुआ लोहेका चूर्ण ८ पल डाल कर तावे आदिके पात्रमें पकावे और उसमें आकका दूध ८ तोले, शूहरका दूध १६ तोले, गूगल ८ तोले, गंधक ४ तोले डाले । अच्छे प्रकारसे शुद्ध किया हुआ पारा २ तोले डाले । जब पककर सिद्ध होजाय तब उतारकर निम्नलिखित औषधिया चूर्ण करके मिला देवे । मुरदाशख, चीता, दन्ती, इन्द्रायन, खण्डकर्णआलू, पलाशके बीज, क्षीरकञ्चुकी, मुसली, त्रिफला, वायविडंग, निसोत, दन्ती, हुलहुल, गोरक्षककडी, पुनर्नवा और वज्रवल्ली ये प्रत्येक औषधि लोहेके समान लेकर पीस कर मिला देवे । फिर इसको एक उत्तम चिकने वासनमें करके रख देवे । और उस वासनको पवित्र और गुप्तस्थानमें गाढ देवे । इसको सेवन करनेसे सर्व-प्रकारके उदररोग, पाण्डुरोग, कामला, हलीमक, बवासीर, भगन्दर, कोठ, कृमि, शूल और जो अनेक-प्रकारके बहुत दिनोंके पुराने रोग हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं । इससे उत्तम शोथोदरकी अन्य औषधि नहीं है ॥ १२५-१३४ ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकाया
शोथाधिकारः समाप्तः ॥ ४१ ॥

अथान्नवृद्धिरोगाधिकार ।

(अण्डवृद्धिनिदान)

क्रुद्धोऽनूर्ध्वगातिर्वायुःशोफशूलकरश्च-
रन् । कुक्षौ बद्धक्षणतः प्राप्य फल-
कोषाभिवाहिनीः । प्रपीडय धमनी-
वृद्धिं करोति फलकोषयोः ॥ १ ॥
दोषान्नमेदोमृत्रान्नैः सवृद्धिः स-
प्तधा गदः । मृत्रान्नजावप्यनिलाद्धे-
तुभेदस्तु केवलम् ॥ २ ॥

अपने कारणोंसे कुपित हुई, नीचेका गमन करने वाली, सृजन और शूलको उत्पन्न करनेवाली और कोखमें विचरण करती हुई वायु वंक्षणमेंसे अण्डमें प्राप्त होकर अण्ड और कोपके बहनेवाली धमनियोंको पीडित कर अण्डकोषोंको बढ़ाती है उसको अण्ड वृद्धि कहते हैं । यह अण्डवृद्धिरोग वातादि भेदों तथा रक्त भेद मूत्र और अन्नज उस भेदोंसे सात-प्रकारका है। मूत्रज और अन्नजवृद्धि वातसे होती है केवल इनके कारण भेदोंसे इनमें भेद माना गया है ॥ १ ॥ २ ॥

वातादिजन्यवृद्धिके लक्षण ।

वातपूर्ण इति स्पर्शो रूक्षो वाताद-
हेतुरुक् । पक्वोदुम्बरसंकाशः पि-
त्तादाहोष्मपाकवान् ॥ ३ ॥ कफा-
च्छीतो गुरुः स्निग्धः कंडूमान् कठि-
नोऽल्परुक् ॥ ४ ॥ कृष्णस्फोटावृतः
पित्तवृद्धिलिङ्गस्तु रक्तजः । कफव-
न्मेदसा वृद्धिर्मृदुस्तालफलोपमः ॥ ५ ॥

वायुसे भरी हुई मसक जैसी हाथके लगनेसे मालूम हो और बिना कारण दुखने लगे इसको वातकी अण्डवृद्धि जानना । जो पके गूलरके फलके समान लाल हो, तथा जिसमें पित्त, दाह, जलन और पाक हो उसको पित्तकी वृद्धि जानना । कफकी वृद्धि शीतल, भारी, चिकनी, खुजलीसाहित, कठिन और वह थोड़ी पीडावाली होती है । काले फोडोंसे व्याप्त तथा जिसमें पित्तवृद्धिके लक्षण मिलते हैं उसको

रक्तपित्तजवृद्धि जानना । भेदकी वृद्धि कफकी वृद्धि-के समान नरम और तालके फलके समान कोमल होती है ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥

मूत्रजवृद्धिके लक्षण ।

मूत्रधारणशीलस्य मूत्रजः स तु ग-
च्छतः । अम्भोभिः पूर्णदृष्टिवत्क्षोभं
याति सरुद्धमृदुः । मूत्रकृच्छ्रमधस्ता-
च्च चलयन् फलकोषयोः ॥ ६ ॥

जो मनुष्य आते हुए मूत्रके वेगको रोकते है, उनको मूत्रजवृद्धि होती है । वह मूत्रवृद्धि चलते समय पानीकी भरी हुई मसकके समान बोलती है । पीडा-युक्त और कोमल होती है तथा मूत्रकृच्छ्रके समान पीडा हो, फल और कोप दोनों इधर उधरको हिलते हैं ॥ ६ ॥

अन्नवृद्धिके लक्षण ।

वातकोपिभिराहारैः शीततोयाव-
गाहनैः । धारणे रणभाराध्वविषमा-
ङ्गप्रवर्तनैः ॥ ७ ॥ क्षोभणैः क्षुभितो
ऽन्यैश्च क्षुद्रान्त्रावयवं यदा । पवनो
विगुणीकृत्य स्वनिवेशादधो नये-
त् ॥ ८ ॥ कुर्घ्याद्बद्धक्षणसन्धिस्थो
ग्रन्थ्याभं श्वयर्थुं तदा ॥ ९ ॥

वातको प्रकुपित करनेवाले आहारको सेवन करनेसे, शीतलजलमें घुसकर स्नान करनेसे, आये हुए मलमूत्रादिके वेगको रोकनेसे, नहीं आये हुए मलमूत्रादिको बलपूर्वक खंचनेसे, भारी बोझके ढोनेसे, अत्यन्त मार्गके चलनेसे, टेढ़े, तिरछे होकर चलनेसे बलवान्के साथ द्वेष करनेसे, विषम धनुषको चढ़ानेसे इत्यादि तथा और भी वातकारक द्रव्योंको सेवन करनेसे और अन्यान्य वायुको क्षुभित करनेवाले कारणोंसे वायु विगुण होकर छोटी आतोंके अवयवोंमें प्रवेश कर उनके एक देशको विगाढकर रहनेके स्थानसे उसे नीचे लेजाकर वंक्षणसंधिमें स्थित होकर उस स्थानमें गाठके समान सृजनको उत्पन्न करता है ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥

इसकी उपेक्षा करनेका फल ।

उपेक्ष्यमाणस्य च मुष्कवृद्धिमाध्मा-
नरुक् संभवती स वायुः । प्रपीडितो-

न्तः स्वनवान्प्रयाति प्रध्मापयन्तेति
पुनश्च सुक्तः ॥ १० ॥

यदि इस अण्डवृद्धिकी शीघ्र चिकित्सा न की जाय तो यह अण्डकोपोमे प्राप्त होकर पेटमें अफारा, शूल करता है वढ़े हुए वृषणोंमें पीडा होती है और शरीर स्तम्भितसा हो जाता है जब इसको हाथसे दवाता है तो यह गुडगुड शब्द करके पेटमें चली जाती है और फिर छोड़ देनेसे अण्डकोपोको फुलाकर उसीमें प्राप्त हो जाती है ॥ १० ॥

असाध्यलक्षण ।

क्षुद्रान्नावयवाश्लेषो मुष्कयोर्वातस-
श्वयात् । अन्त्रवृद्धिरसाध्येयं वात-
वृद्धिसमाकृतिः ॥ ११ ॥

जिसमें छोटी आंतोंके कुछ अवयव कफवातके संघयसे अण्डकोपोमें प्राप्त होजाय और जिसमें वात-वृद्धिके लक्षण मिलते हों उस अन्त्रवृद्धिको असाध्य जानना ॥ ११ ॥

अपथ्य ।

वेगाघातं पृष्ठयानं व्यायामं मैथुनं
तथा । अत्यशनमथाध्वानमुपवासं
परित्यजेत् ॥ १२ ॥

मलमूत्रादिके वेगोंको रोकना, हाथी, घोडे आदि-की सवारी, दण्ड, कसरत अथवा परिश्रमादि, स्त्री-प्रसंग, अत्यन्त भोजन, अत्यंत मार्ग चलना और उप-वास इन सबको अण्डवृद्धिवाला त्यागदेवे ॥ १२ ॥

अन्त्रवृद्धिकी चिकित्सा ।

वातवृद्धौ पिवेत्स्निग्धैः यथान्यायं
विरेचनम् । सक्षीरश्च पिवेत्तैलं मा-
समैरण्डसम्भवम् ॥ १३ ॥

वातजवृद्धियोगमें यथादोषानुसार स्निग्ध औषधि-योंके द्वारा विरेचन देवे । अण्डोंके तेलमें दूध मिला-कर एक सहीनेतक पान करनेसे वातकी वृद्धि गमन होती है ॥ १३ ॥

गुग्गुल्वेरण्डजं तैलं गोमूत्रेण पिवे-
न्नरः । वातवृद्धिं जयत्याशु चिरका-
लानुबन्धिनीम् ॥ १४ ॥

गूगल और अंडीके तेलको गोमूत्रके साथ पान करनेसे बहुत दिनोंकी पुरानी वातकी वृद्धि दूर होती है ॥ १४ ॥

अन्त्रवृद्धिमदीताग्नेर्वास्तिभिः समुपा-
चरेत् । तैलं नारायणं योज्यं पाना-
भ्यजनवास्तिभिः ॥ १५ ॥

जो अन्त्रवृद्धिरोगमें अग्नि मन्द हो तो वस्तिकर्ममें प्रयोग करे । तथा पान, अभ्यजन और वस्तिकर्मके द्वारा नारायण तेलका व्यवहार करे ॥ १५ ॥

जलौकाभिर्हरेद्रक्तं वृद्धौ पित्तभवे
तथा । पित्तग्रन्थिक्रमेणैव पित्तवृद्धि-
सुपाचरेत् ॥ १६ ॥

पित्तकी वृद्धिमें जोक लगावावे और पित्तजग्रन्थिके समान समस्त उपचार करे ॥ १६ ॥

चन्दनं मधुकं पद्मं चोशीरं नीलमु-
त्पलम् । क्षीरपिष्टैः प्रदेहः स्यादाह-
शोथरुजापहः ॥ १७ ॥

चन्दन, मुलैठी, कमल, खस और नीले कमल इनको दूधमें पीसकर प्रलेप करनेसे-दाह, सूजन और पीडा शांत होती है ॥ १७ ॥

पञ्चवल्कलकल्केन सघृतेन प्रलेपनम् ।
एषामेव कषायेण शीतिन परिषेचन-
म् ॥ १८ ॥

पंचक्षीरवृक्षोंके कल्को घीमें मिलाकर प्रलेप करनेसे और इन पंचक्षीरी, वृक्षोंकी छालको जलमें औटाकर शीतल करके उस काथका सेचन करनेसे पित्तिक वृद्धिकी दाह, सूजन और पीडा शांत होती है ॥ १८ ॥

पञ्चवल्कल ।

न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थाः सपिप्पलकपी-
तनाः । क्षीरवृक्षास्तु पञ्चैषां वल्कलं
पञ्चवल्कलम् ॥ १९ ॥ क्वचित्कपीत-
नस्थाने शिरीषो वेतसः क्वचित् ॥ २० ॥

वड, गूलर, पीपल, बेलिया पीपल और गर्दभाण्ड (पारिसपीपल) इन पांच क्षीरवृक्षोंकी छालको

पञ्चवल्कल कहते है । कहीं पारिसपीपलके स्थानमें सिरसकी छाल और कहीं वेतकी छाल लेते हैं और कहीं पिलखन भी लेते है ॥ १९ ॥ २० ॥

कफवृद्धौ सुसंपिष्टैरुष्णवीर्यैः प्रलेपनम् । पातव्यो मूत्रसंयुक्तः कषायः पीतदारुणः ॥ २१ ॥

कफकी वृद्धिमें गोमूत्रमें पिसी हुई गरम औषधियोंका प्रलेप करना चाहिए । अथवा देवदारुके काथको गोमूत्रके साथ पान करे तो कफकी वृद्धि शमन होती है ॥ २१ ॥

त्रिकटुत्रिफलाकाथं सक्षारलवणं पिबेत् । कफवातप्रकोपेऽपि विरेकः कफवृद्धिनुत् ॥ २२ ॥

त्रिकुटा और त्रिफलेके काथमें जवाखार और सैधानमक डालकर पान करनेसे विरेचन होकर कफवातके प्रकोपसे उत्पन्न हुई कफकी वृद्धि नष्ट होती है ॥ २२ ॥

त्रिफलाकाथगोमूत्रं पिबेत्प्रातरतन्द्रितः । कफवातोद्भवं हन्ति श्वयं वृषणोद्भवम् ॥ २३ ॥

त्रिफलेके काथमें गोमूत्र डालकर प्रातःकाल उठकर पान करे और पथ्यसे रहे तो कफवातसे उत्पन्न हुई अण्डकोषोकी सूजन दूर होती है ॥ २३ ॥

लेपनः कटुतीक्ष्णोष्णः स्वेदनं रूक्षमेव च । परिषेकोपनाहौ च सर्वमुष्णमिहेष्यते ॥ २४ ॥

कफकी वृद्धिमें कटु, तीक्ष्ण और उष्ण औषधियोंका प्रलेप, रूक्ष औषधियोंके द्वारा स्वेद तथा परिषेक और उपनाहकर्म ये सब उष्ण उपचार करने चाहिए ॥ २४ ॥

वचासर्षपकल्केन प्रलेपः शोथनाशनः । शिशुत्वक्सर्षिषैः पिष्टैः शोथः श्लेष्मानिलापहः ॥ २५ ॥

वच और सरसोके कल्कका प्रलेप करनेसे अण्डकोषोकी सूजन दूर होती है । सिंहजनेकी छालको

घृतमें पीसकर प्रलेप करनेसे कफवातकी अण्डवृद्धि दूर होती है ॥ २५ ॥

सरलागुरुकुष्ठानि देवदारुमहौषधम् । मूत्रारनालसंपिष्टं शोथघ्नं कफवातजित् ॥ २६ ॥

धूपसरल, अगर, कूठ, देवदारु और सोंठ इनको गोमूत्र और काजीमें पीसकर लेप करनेसे वृद्धिगत सूजन और कफवात नष्ट होते है ॥ २६ ॥

हरीतकीं मूत्रसिद्धां सतैललवणान्विताम् । प्रातः प्रातश्च सेवेत कफवातामयापहाम् ॥ २७ ॥

हरडको गोमूत्रमें पकाकर फिर उसको तेलमें भूनकर सैधानमक मिलाकर प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करनेसे कफवातके रोग नष्ट होते हैं ॥ २७ ॥

अविदाहि च कर्तव्यं भेषजं रक्तपित्तके । सर्वं पित्तहरं कार्यं रक्तजे रक्तमोक्षणम् ॥ २८ ॥

रक्तपित्तज वृद्धिरोगमें सम्पूर्ण दाहरहित चिकित्सा करनी चाहिए, पित्तजवृद्धिरोगमें पित्तनाशक और रक्तजवृद्धिमें रक्तमोक्षण करावे ॥ २८ ॥

शीतमालेपनं कार्यं पाको रक्षयः प्रयत्नतः । मुहुर्मुहुर्जलौकामिः शोणितं रक्तजे हरेत् ॥ २९ ॥

अण्डवृद्धिरोगमें पाककी रक्षा करके अर्थात् जिससे पक न जाय ऐसा बचाव करके शीतल प्रलेपादि करे । तथा रक्तजवृद्धिरोगमें बारम्बार जाँक लगवाकर रुधिर निकलवावे ॥ २९ ॥

पिबेद्विरेचनं वापि शर्कराक्षौद्रसंयुतम् । पित्तग्रन्थिक्रमं कुर्यादामे पक्के च रक्तजे ॥ ३० ॥

अथवा विरेचनकी औषधियोंमें खाँड और शहद मिलाकर पान करे । आम, पक और रक्तजवृद्धिरोगमें पित्तग्रन्थिके समान चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ३० ॥

स्विन्नं मेदःसमुत्थन्तु लेपयेत्सुरसा-
दिना । शिरोविरेचनद्रव्यैः सुखोष्णै-
र्मूत्रसंयुतैः ॥ ३१ ॥

मेदसे उत्पन्न हुए वृद्धिरोगमे अण्डकोषोको स्वे-
दित करके सुरसादि औषधियोंको एकत्र पीसकर लेप
करना चाहिए । तथा शिरोविरेचनकी औषधियोंको
गोमूत्रमें पीसकर सुहाता सुहाता प्रलेप करे ॥३१॥

संस्वेद्य मूत्रप्रभवं वस्त्रपट्टेन वेष्टितम् ।
सीवन्याः सर्वतोऽधस्ताद्विध्येदूत्रीहि-
मुखेन वै ॥ मुष्ककोशमगच्छन्त्याम-
न्त्रवृद्धौ विचक्षणः । वातवृद्धिक्रमं
कुर्व्यादाहस्तत्राग्निना हितः ॥ ३२ ॥

मूत्रवृद्धिरोगमे प्रथम वफारा देकर अण्डकोषोको
वस्त्रसे लपेट देवे और अण्डकोषोंकी सीवनको एक-
ओर करके नीचेके अंगमें त्रीहिमुख यन्त्रसे वेध करे
और जो अण्डवृद्धि अण्डकी गोलीतक न पहुँची हो
तो उसपर वातजअण्डवृद्धिमें कहेहुए उपचार करे और
दाग देवे ॥ ३२॥

शिरावेध ।

शङ्खस्योपरि कर्णान्ते त्यक्त्वा सीवनि-
मादरात् । व्यत्यासाद्वा शिरां वि-
ध्येदन्त्रवृद्धिनिवृत्तये ॥ ३३ ॥

शंख (कनपटी) के ऊपर और कानके अन्तमें
सीवनकी सीधियोंको छोडकर जो दाहिनी ओर अण्ड-
वृद्धि हो तो बाई ओर और जो बाई ओर अण्डवृद्धि
हो तो दाहिनी ओरकी गिरावेध करे । इससे अन्त्रवृ-
द्धिकी निवृत्ति होती है ॥ ३३ ॥

तैलमैरण्डजं पीत्वा बलासिद्धं पयो-
न्वितम् । आध्मानशूलोपचितामन्त्र-
वृद्धिं जयेन्नरः ॥ ३४ ॥

अंडीके तेलको खिरैटीके कलकसे सिद्ध किये हुए
दूधमें डालकर पान करनेसे आध्मान और शूल समेत
अन्त्रवृद्धिरोग दूर होता है ॥ ३४ ॥

रास्नायष्टचमृतैरण्डबलागोक्षुरसाधि-
तः । काथोऽन्त्रवृद्धिं हन्त्याशु रुबुतै-
लेन मिश्रितम् ॥ ३५ ॥

रायसन, मुलेठी, गिलोय, अण्डकी जड, खिरैटी
और गोखुरु इनके काथमें अंडीका तेल डालकर पान
करनेसे अन्त्रवृद्धिरोग दूर होता है ॥ ३५ ॥

विदग्धासु च सर्वासु योज्यं कर्म
त्रणापहम् । अंगुष्ठमध्ये त्वक् छित्वा
दहेद्रायुं विवर्जयेत् ॥ अनेनैव विधा-
नेन कुर्व्याद्वातकफात्मजे ॥ ३६ ॥

अच्छेप्रकारसे दग्ध की हुई सब प्रकारकी अण्डवृ-
द्धियोमे त्रणके समान चिकित्सा करनी चाहिए ।
पाँवके अंगुठेकी बीचकी नसको छेदन करके विपरीत
क्रमसे दाग देवे अर्थात् बाई ओर हो तो दाहिनी ओर
और जो दाहिनी ओर हो तो बाईओर दाग देवे और
इसी प्रकार वातकफकी वृद्धिमे उपचार करना
चाहिए ॥ ३६ ॥

व्यूषणं पिप्पलीमूलं देवदारुफलत्रि-
कम् । कषायं पाचयेत्तेषां सक्षारलव-
णत्रयम् ॥ ३७ ॥ त्रिभिर्मासैः प्रशा-
म्येत वृद्धिर्वातकफात्मजा ॥ ३८ ॥

त्रिकुटा, पीपलामूल, देवदारु और त्रिफला इनका
काथ बनाकर उसमे जवाखार और तीनों लवण डाल-
कर पान करनेसे तीन महीनेमे कफवातकी वृद्धि
शमन होती है ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

रास्नायष्टचमृतैरण्डपटोलारेणुकाव-
लाः । वृषश्च कथितो वृद्धिं निहन्या-
च्चित्रतैलवान् ॥ ३९ ॥

रायसन, मुलेठी, गिलोय अण्डकी जड, पटोलपत्र,
रेणुका, खिरैटी और अडूसा इनके काथमे अंडीका
तेल डालकर पान करनेसे सर्व प्रकारके अण्डवृद्धिरोग
शांत होते है ॥ ३९ ॥

गन्धर्वतैलसंमिश्रं विशालामूलजं र-
जः । क्षीरेण पीतं सप्ताहाद्वृद्धिं हन्ति
न संशयः ॥ ४० ॥

इन्द्रायनके जडके चूर्णको दूधमे पीसकर अंडीका
तेल मिलाकर सात दिन पर्यंत पान करनेसे अण्डवृद्धि
रोग दूर होता है ॥ ४० ॥

कुरण्डरोगके निदान और लक्षण ।
अत्यभिष्यन्दिगुर्वम्लसेवनान्निचयं ग-
तः । करोति ग्रन्थिवच्छोफं दोषो व-
द्वक्षणसन्धिषु ॥ ४१ ॥

अत्यंत अभिष्यन्दी पदार्थोंको भक्षण करनेसे,
भारी पदार्थोंको सेवन करनेसे और खट्टे पदार्थोंको
सेवन करनेसे वातादिदोष कृपित होकर वंक्षणसधि-
योंमें ग्रंथिके समान जो शोथको उत्पन्न करते हैं
उसको "कुरण्ड" कहते हैं ॥ ४१ ॥

कुरण्डरोगकी चिकित्सा ।

यथांबुना तु संपिष्टं मूलं भाङ्गर्चाः प्र-
लेपनात् । कुरण्डं गण्डमालाश्च ह-
न्त्यवश्यं न संशयः ॥ ४२ ॥

भारंगीकी जड़को जलमें पीसकर प्रलेप करनेसे
कुरण्ड, गण्डमाला और वृद्धिरोग दूर होता है ॥ ४२ ॥

शम्बूकोदरनिहितं गव्यं सप्ताहमा-
तपे सर्पिः । स्थितमपहरति कुरण्डं
सैन्धवचूर्णान्वितं लेपात् ॥ ४३ ॥

शम्बूक नामक शखमें गौके घीको भरकर सात
दिनतक रख देंगे, फिर उस घृतको निकालकर उसमें
सैन्धनमकका चूर्ण मिलाकर लेप करनेसे कुरण्डरोग
दूर होता है ॥ ४३ ॥

ससैन्धवं घृताभ्यक्तं ताम्रभाजनमा-
तपे । प्रतप्तं चूर्णनिर्वृष्टं तन्मलं समुपा-
हरेत् ॥ ४४ ॥ म्रक्षयेत्तेन कौरण्डम-
नुद्रिशो दिवानिशम् । प्रवृद्धं तेन
कौरण्डं नश्यत्याह पुनर्वसुः ॥ ४५ ॥

सैन्धनमक और घीको एकत्र मिलाकर तांबेके
पात्रमें करके धूपमें घिसे । उसके घिसनेसे जो मल
निकले उस मलको ग्रहण करके कुरण्डके ऊपर दिन-
रात लगावे । इसको लगानेसे अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त
हुआ भी कुरण्ड जीत्र आरोग्य होता है ऐसा पुनर्व-
सु कहते हैं ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

लज्जालुमूलगृध्रस्य विट्प्रलेपः प्रयो-
जितः । कुरण्डं योनिरोगश्च नाश-
येदविकल्पतः ॥ ४६ ॥

लज्जावन्ती और गीधकी विष्टा इन दोनोंको एकत्र
पीस कर लेप करनेसे कुरण्ड और योनिरोग अव-
श्य नष्ट होते हैं ॥ ४६ ॥

सतैललवणं भस्म पारदं लेपमात्रतः ।
अपि तालफलाकारां वृद्धिं जयति
वेगतः ॥ ४७ ॥

पारेकी भस्मको तेल और सैन्धनमकमें मिला कर
लेप करनेसे तालफलके समान अत्यन्त बड़ीहुई भी
अंडवृद्धि शान्त हो जाती है ॥ ४७ ॥

शतपुष्पाद्यवृत ।

शतपुष्पामृतादारुचन्दनं रजनीद्वय-
म् । जीरके द्वे वचा नागं त्रिफला गु-
ग्गुलु त्वचम् ॥ ४८ ॥ मांसी कुष्ठं पत्र-
कैला रास्ना शृङ्गी च चित्रकम् । कृ-
मिघ्नमश्वगन्धा च शैलेयं कटुरोहि-
णी ॥ ४९ ॥ सैन्धवं तगरश्चैव कुटजा-
तिविषैः समैः । एतैश्च कार्ष्णिकैः कल्कै-
र्धृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ५० ॥ वृ-
षमुण्डितिकैरण्डनिम्बपत्रभवो रसः ।
कण्टकार्यास्तथा क्षीरं प्रस्थं प्रस्थं
विनिःक्षिपेत् ॥ ५१ ॥ सिद्धमेतद्वृतं
पीतमन्त्रवृद्धिं व्यपोहति । वातवृद्धिं
पित्तवृद्धिं मेदोवृद्धिमथापि वा ॥ ५२ ॥
मूत्रवृद्धिं श्लिपदश्च यकृत्प्लीहानमेव
च । शतपुष्पावृतं चैतद्धन्यादेतन्न
संशयः ॥ ५३ ॥

सौंफ, गिलोय, देवदारु, चन्दन, हलदी, दारु-
हलदी, जीरा, काला जीरा, वच, नागकेशर, त्रिफला,
गुगल, दालचीनी, वालछड, कूठ, तेजपात, इला-
यची, रायसन, काकडा शिगी, चीता, वायविडंग,
असगन्ध, भूरिछरीला, कुटकी, सैन्धानमक, तगर, कुडा
और अतीस इन प्रत्येक औषधियोंका एक एक तोला
कल्क और उत्तम गौका घी १ प्रस्थ लेवे, तथा
अङ्गुमा, गोरखमुण्डी, अंडकी जड़, नीमकी छाल और
कटेरीके पचांगमें इन प्रत्येक औषधिका स्वरस
पृथक् पृथक् एक एक प्रस्थ और गौका दूध १

प्रस्थ लेवे । सबको एकत्र करके उत्तम विधिसे घृतको सिद्ध करे । यह घृत-अन्नवृद्धि, वातवृद्धि, पित्तवृद्धि, मेदवृद्धि, मूत्रवृद्धि, श्लीपदरोग, यकृत और प्लीहाको नष्ट करता है । यह शतपुष्पाघघृत सम्पूर्ण रोगनाशक है ॥ ४८-५३ ॥

गन्धर्वहस्ततैल ।

शतमेरुण्डमूलस्य पलं शुण्ठ्या यवा-
ठकम् । जलद्रोणे विषक्तव्यं यावत्पा-
दावशेषितम् ॥ ५४ ॥ तत्र पादाव-
शेषेण पयसा तत्समेन च । प्रस्थमे-
रुण्डतैलस्य तन्मूलाच्च चतुष्पलम् ॥
॥ ५५ ॥ त्रिपलं शृङ्गवेरस्य गर्भं दत्त्वा
विपाचयेत् । तत्पिबेन्नियतः शुद्धो
नरः क्षीरान्नभुक्सदा ॥ ५६ ॥ अ-
न्नवृद्धिं जयत्याशु तैलं गन्धर्वहस्त-
कम् ॥ ५७ ॥

अंडकी जड १०० पल, सोठ और जौ प्रत्येक एक एक आठक परिमाण लेकर एक द्रोण जलमे पकावे । जब पकते पकते चौथाई भाग जल वाकी रह जाय तब उतार कर छान लेवे । फिर उस काथमे घराघरका दूध डाल कर तथा अंडीका तेल १ प्रस्थ, अंडकी जडका कल्क ४ पल एव अदरखका कल्क ३ पल, इन सबको एकत्र मिला कर यथाविधिसे तेलको सिद्ध करे । इसको नियमपूर्वक नित्य शुद्ध हो कर पान करे और इनपर दूध और अन्नका भोजन करे तो यह गन्धर्वहस्तक तैल-अन्नवृद्धिको अवश्य दूर कर देता है ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥


तैलं नारायणं योऽर्घ्यं पानाभ्यञ्जनव-
स्तिपु । घृतं सौरे वरश्चैव ह्यन्नवृद्धि-
निवृत्तये । आर्द्रक षट्पलं वापि च-
व्याद्यं च प्रयोजयेत् ॥ ५८ ॥

इस अण्डवृद्धिरोगमे पान, अभ्यंजन और वस्ति-
कर्मके द्वारा नारायणतेल प्रयोग करना चाहिए तथा

सौरेधरघृत, आर्द्रक, षट्पलघृत और चव्याद्यघृत भी प्रयोग करने चाहिए ॥ ५८ ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकाया-
मन्त्रवृद्धिनिदानचिकित्सा-
धिकार समाप्त ॥ ४२ ॥

अथ ब्रध्नरोगाधिकारः ।



ब्रध्न (बद्) का निदान ।

अत्यभिप्यन्दिगुर्वम्लसेवनात्रिचयं ग-
तः । करोति वृद्धिं शोफश्च दोषो
वङ्क्षणसन्धिषु ॥ ज्वरशूलाङ्गसादा-
ठ्यं तं ब्रध्नमिति निर्दिशेत् ॥ १ ॥ नि-
र्व्यथं च कुरंडं स्याद्ब्रध्नं भवति स-
व्यथम् । अयमेवानर्थोर्भेदो ह्यन्यत्स-
र्वसमं तथा ॥ २ ॥

अत्यन्त अभिप्यन्दी पदार्थोंको सेवन करनेसे, भारी अन्नको भक्षण करनेसे (कच्चे पदार्थोंको सेवन करनेसे, रुखे, दुर्गन्धयुक्त और विभेय मांसादिकोंको भक्षण करनेसे) तथा अधिकतर अम्लपदार्थोंको सेवन करनेसे वातादिवेग कुपित होकर वङ्क्षणकी सवि अर्थात् वस्तिके नीचे और जाँघके ऊपर सूजनको उत्पन्न करते हैं । इसमें ज्वर, शूल और अंगोमे अत्यंत शिथिलता होती है । कुरण्डमे और इसमें केवल इतना ही अन्तर है कि कुरण्डरोग पीडारहित होता है और इस ब्रध्नरोगमे पीडा होती है और जेप दोनोंके एकत्र लक्षण मिलते हैं ॥ १ ॥ २ ॥

ब्रध्नरोगकी चिकित्सा ।

भृष्टश्वैरुण्डतैलेन कल्कः पथ्याससुद्धवः ।
कृष्णासैन्धवसंयुक्तो ब्रध्नरोगहरः प-
रः ॥ ३ ॥

हरडको अंडीके तेलमे भूनकर पीपल और सैवे-
नोनके साथ मिला कर सेवन करनेसे ब्रध्नरोग दूर
होता है ॥ ३ ॥

आविक्षीरेण गोधूमचूर्णं कुन्दुरुकस्य
च । प्रलेपनं सुखोष्णं स्याद्ब्रध्नरागे-
हरं परम् ॥ ४ ॥

गेहूँके चूर्णको ओर कुन्दुरुके चूर्णको भेडके
दूधमे पीस कर मद्दोष्ण प्रलेप करनेसे ब्रध्नरोग दूर
होता है ॥ ४ ॥

नृतमात्रे च वै काके विशाले तु प्र-
वेशयेत् । ब्रध्नं सुहूर्त्तं मेधावी तत्क्ष-
णादरुजं भवेत् ॥ ५ ॥

एक मरेहुए वडे काँवेको लेकर उसका पेट पाडकर
उसने वदको प्रवेशकर देवे फिर तत्काल सुहूर्त्तभरमे
निकाल लेवे इससे ब्रध्नरोग शीघ्र शांत हो जाता
है ॥ ५ ॥

अजाजीहपुषाकुष्ठं गोधूमं बदरान्वि-
तम् । काश्चिकेन तु संपिष्टं कुय्याद्ब्र-
ध्नप्रलेपनम् ॥ ६ ॥

जीरा, हाऊवर, कूठ, गेहूँ और वेर इनको एकत्र
काँजीमे पीसकर लेप करनेसे ब्रध्नरोग दूर होताहै६॥

श्वदंष्ट्रासिन्धुविश्वाब्ददारुकामिहरा-
श्मभित् । लोभ्रचूर्णं कृतेनाद्याद्वात-
ब्रध्नहरं परम् ॥ ७ ॥

गोखुरु, सैवानमक, सोठ, नागरमोथा, देवदारु,
वायविडंग, पापाणभेद और लोध इन सबका चूर्ण
करके घीमे मिलाकर सेवन करनेसे वातकी वृद्धि दूर
होती है ॥ ७ ॥

पुण्योद्धतं हरेदाशु विश्लुतं तुषवारि-
णा । भाङ्गीमूलमखंडन्तु पानाद्ब्रध्न-
णवातजित् ॥ ८ ॥

पुण्यनक्षत्रमे भारगीकी जडको उखाडकर काजीमे
भावना देकर उसको नित्य पान करनेमे वक्ष्णका
वात दूर होता है ॥ ८ ॥

विल्वान्नचूर्ण ।

मूलं विल्वकपित्थयोररलुकस्याग्नेर्वृ-
हत्योर्द्रयोः श्यामापूतिकरञ्जशि-
शुकनरोर्विश्वौषधारुष्करम् ॥ कृष्णा-

ग्रन्थिकचव्यपञ्चलवणं क्षाराजमोदा-
न्वितं पतिं काञ्जिककोष्णतोयस-
थितैश्चूर्णिकृतं ब्रध्नजित् ॥ ९ ॥

बेलकी जड, कैथकी जड, ज्योनाककी जड,
चाँतेकी जड, कटेरी, वडी कटेरी, कृष्ण शारिवा,
दुर्गधकरज, सहजना, सोठ, भिलावे, पीपल, पीप-
लामूल, चव्य, पांचोमक, जवाखार और अजमोद
इन सब औषधियोंको समान भाग लेकर वारीक
पीसकर चूर्ण करलेव । इस चूर्णको मद्दोष्ण जलके
साथ पान करनेसे अथवा काँजीके साथ पान करनेसे
ब्रध्नरोग दूर होता है ॥ ९ ॥

बृहत्सैन्धवाद्यतैल ।

सैन्धवं मदनं कुष्ठं शताह्वा निचुलं
वचा । द्विदिरं मधुकं भाङ्गीं देवदारु
सनागरम् ॥ १० ॥ कट्फलं पौष्करं
मेदे चविकाचित्रकं शटी । विडङ्गाऽ-
तिविषा श्यामा हरेणु नलिनी स्थि-
रा ॥ ११ ॥ विश्वाजमोदे कृष्णा च
दन्ती रास्त्रा च तैः समैः । साध्यमैरं-
डजं तैलमभ्यङ्गात्कफवातजित् ॥ १२ ॥
ब्रध्नोदावर्त्तगुल्मार्शःप्लीहमेहाढ्यमा-
रुतान् । आनाहमश्मरीश्वैश्च हन्या-
त्तदनुवासनात् ॥ १३ ॥

सैधानमक, सैनफल, कूठ, सौफ, समुद्रफल, वच,
सुगधवाला, मुलैठी, भारंगी, देवदारु, सोठ, कायफल,
पोहकरमूल, मेदा, महामेदा, चव्य, चीता, कचूर, वाय-
विडंग अतीस, शारिवा, रेणुका, नलिनी, शालिपर्णी,
सोठ, अजमोद, पीपल, दंती और रायसन यह प्रत्येक
औषधि समान भाग लेकर कलक बनाकर अंडीके
तेलको पकावे । इस तेलकी मालिस करनेसे—कफ
वातरोग और इसको अनुवासन वास्तिके द्वारा प्रयोग
करनेसे ब्रध्न, उदावर्त्त, गुल्म, धवाशीर, प्लीहा, प्रमेह
आढ्यवात, आनाह और अश्मरीरोग नष्ट होता है
॥ १०-१३ ॥

इति श्रीवंगसेने भाषाटीकाया
ब्रध्ननाधिकार समाप्त ॥ ४३ ॥

अथ गलगण्डरोगाधिकार ।

गलगण्डका निदान ।

निबद्धः श्वयथुर्यस्य सुक्कवल्लम्बते गले । महान्वा यदि वा ह्रस्वो गलगण्डं तमादिशेत् ॥ १ ॥

जिस मनुष्यके गलेमे स्थिर या निश्चल छोटा अथवा बड़ा अण्डकोपकी समान सूजन होकर लटके उसको गलगण्डरोग कहते हैं ॥ १ ॥

गलगण्डकी संप्राप्ति ।

वातः कफश्चापि गले प्रदुष्टौ मन्ये समाश्रित्य तथैव मेदः । कुर्वन्ति गण्डं क्रमशः स्वालिङ्गैः समन्वितं तं गलगण्डमाहुः ॥ २ ॥

गलेमे द्रपित हुए वात, कफ, तथा मेद गलेकी मन्या नाडियाके आश्रित होकर अपने अपने लक्षणो-युक्त गण्डको उत्पन्न करते हैं इससे उसको गलगण्ड कहते हैं यह गलगण्ड रोग वात, कफ और मेद इस भेदोसे तीन प्रकारका है ॥ २ ॥

वातिकगलगण्डके लक्षण ।

तोदान्वितः कृष्णशिरावनद्धः श्यावारुणो वा पवनात्मकस्तु । पारुष्ययुक्तश्चिरवृद्धिपाको यदृच्छया पाकमियात्कदाचित् ॥ वैरस्यमास्यस्य च तस्य जन्तोर्भवेत्तथा तालुगलप्रशोषः ॥ ३ ॥

वातज गलगण्ड रोगमे सुई छेदन सरीखी पीडावाला कालीनसोसे व्याप्य लाल अथवा धूसर रङ्गका रूखा-वहुतकालमे बढनेवाला आर पकनेवाला कभी स्वयं भी पकनेवाला, मुखमे विरसता, तालु और गलेमे शोष युक्त होता है ॥ ३ ॥

कफजगलगण्डके लक्षण ।

स्थिरः सवर्णोऽगुरुह्रस्वकंडूः शीतो महांश्रैष कफात्मकस्तु ॥ ४ ॥ चिरा-

भिवृद्धिं भजते चिराद्वा प्रपच्यते मन्दरुजः कदाचित् । माधुर्यमास्यस्य च तस्य जन्तोर्भवेत्तथा तालुगलप्रलेपः ॥ ५ ॥

कफजगलगण्ड-निश्चल, गलेकी त्वचाके समाने वर्णवाला, अल्पपडायुक्त, अत्यंत गुजली हो, शीतल, बड़ा, बहुत समयमे बढने तथा पकनेवाला तथा पाक कालमे अल्पवेदना वाला, रोगोके मुखमे मधुरता, तालु और कंठमे कफ स्थिसासा रहता है ॥ ४ ॥ ५ ॥

मेदजगलगण्डके लक्षण ।

स्निग्धोऽगुरुः पांडुरनिष्टगन्धो मेदो-युतः कण्डुयुतो रुजश्च । प्रलम्बतेऽलाडुवदल्पमूलो विवर्द्धते ह्यीयति चात्र देहे ॥ ६ ॥ स्निग्धास्यता तस्य भवेच्च जन्तोर्गलेऽनुशब्दं कुरुते च नित्यम् ॥ ७ ॥

मेदसे उत्पन्न हुआ गलगण्ड चिकना, भारी, पाण्डु-वर्ण, दुर्गंधसहित, अल्पपीडायुक्त, गुजली हो, जडमे पतला और अलाडू (तोम्बी, लौकी) के समान लटकता रहे तथा शरीरके अनुसार घटे बढे । उससे मुखमे स्निग्धता और निरंतर गलेमे घुरघुर शब्द होता है ॥ ६ ॥ ७ ॥

असाध्यलक्षण ।

कृच्छ्रोच्छ्वसन्तं मृदुसर्वगात्रं सम्बत्सरातीतमरोचकार्तम् । क्षीणश्च वैद्यो गलगण्डयुक्तं भिन्नस्वरश्चापि विवर्जयेत्तम् ॥ ८ ॥

जो गलगण्डरोगी अत्यन्त कष्टसे श्वास लेवे, जिसका सर्व शरीर नरम होगया हो, जिसके गलगण्ड उत्पन्न हुए एकवर्ष बीतगया हो और जो अरोचक रोगयुक्त, क्षीण और स्वरभंग रोगयुक्त हो तो वैद्य उसको त्यागदेवे ॥ ८ ॥

गलगण्डकी चिकित्सा ।

स्वेदोऽनिलोत्थे गलगण्डकादौ नाडयानिलघ्नौषधपत्रभंगैः ॥ ९ ॥

वातज गलगण्ड रोगमे प्रथम वैद्य कमलकी नाल अथवा अन्य वातनाशक औषधियोंके पत्रोंकी पिडी बनाकर बांधे अथवा स्वेद देवे ॥ ९ ॥

निचुलं शिशुबीजानि दशमूलमथा-
पि वा । आलेपनं वातगण्डे सुखो-
ष्णं संप्रशस्यते ॥ १० ॥

समुद्रफल, सहिजनेके बीज अथवा दशमूलकी समस्त औषधियां इनको एकत्र पीसकर सुहाता २ प्रलेप करनेसे वातज गण्डरोग दूर होता है ॥ १० ॥

स्वेदोपनाहैः कफसम्भवे तु संस्वेद्य
विघ्नावणमेव कुर्यात् ॥ ११ ॥

कफजनित गलगण्डमे कफनाशक स्वेद और उप-
नाह कर्म करे तथा रोगीको स्वेदित करके विघ्नावण
करावे ॥ ११ ॥

देवदारु विशाला च कफगण्डे प्रले-
पनम् । छर्दनं शीर्षरेकश्च सर्वो रेच-
निको हितः ॥ १२ ॥

देवदारु और इन्द्रायन इनको एकत्र पीसकर लेप
करनेसे कफज गलगण्ड रोग शमन होता है । तथा
वमन, शिरोविरेचन और सर्वप्रकारकी विरेचन भी
कफज गलगण्ड रोगमे हितकारी है ॥ १२ ॥

मेदःसमुत्थे तु यथोपदिष्टं विध्ये-
च्छिरां स्निग्धतनोर्नरस्य । श्यामा-
सुधालोहपुरीषदन्तीरसाञ्जनैश्चापि
हितः प्रलेपः ॥ १३ ॥

मेदज गलगण्ड रोगमे प्रथम वैद्य रोगीको स्निग्ध
करके फिर शिरावेध करावे, तथा पीपल, यूहर अथवा
चूना, लोहमल, दंती और रसौत इनका लेप
करे ॥ १३ ॥

मूत्रेण वालोड्य हिताय कल्कं प्रातः
पित्तसारमहीरुहाणाम् ॥ १४ ॥

अथवा प्रातःकाल उठकर वृक्षोंके सारको गोमू-
त्रके साथ पीसकर पान करे ॥ १४ ॥

सर्षपान् शिशुबीजानि शणबीजात-
सीयवान् । मूलकस्य च बीजानि त-

क्रेणाम्लेन पेषयेत् ॥ १५ ॥ गण्डानि
ग्रन्थयश्चैव गण्डमाला सुदारुणा ।
आलेपादेव नश्यन्ति विलयं यान्ति
चाचिरात् ॥ १६ ॥

सरसा, सहिजनेके बीज, सनके बीज, अलसी,
जौ और मूलीके बीज इनको खट्टे तक्र अर्थात् मट्टेमे
पीसकर लेप करनेसे गलगण्ड, ग्रन्थि, दारुण गण्ड-
माला, और सर्व प्रकारके गलगण्ड इत्यादि रोग बहुत
शीघ्र नष्ट होते हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥

रक्षोघ्नतैलयुक्तेन जलकुम्भिकभस्म-
ना । लेपनं गलगण्डस्य चिरोत्थस्या-
पि शस्यते ॥ १७ ॥

जलकुम्भिकी भस्मको भिलावेके तेलमे मिलाकर
अथवा सरसोके तेलमे मिलाकर लेप करनेसे बहुत
दिनोंका पुराना गलगण्ड दूर होता है ॥ १७ ॥

दग्धं वराहपुच्छाग्रं कटुतैलसमन्वि-
तम् । नस्येन हन्ति तरुणं गलगण्ड-
मसंशयम् ॥ १८ ॥

सूअरकी पूछका अग्रभाग लेकर अग्निमे जला लेवे,
फिर उसको कडेव तेलमे मिलाकर नास देतो नि-
संदेह गलगण्डरोग दूर होता है ॥ १८ ॥

तंडुलोदकपिष्टेन मूलेन परिलेपतः ।
हास्तिकर्णपलाशस्य गलगण्डः प्रशा-
म्यति ॥ १९ ॥

हास्तिकर्णपलाशकी जड़को चावलोके जलमे पीस
कर लेपन करनेसे गलगण्ड रोग शमन होता है ॥ १९ ॥

श्वेतापराजितामूलं प्रातः पिष्ट्वा पि-
बेन्नरः । सर्पिषा नियताहारो गल-
गण्डप्रशान्तये ॥ २० ॥

सफेद कोइलकी जड़को प्रातःकाल जलमे पीसकर
पान करे और नित्य चीके साथ भोजन खाये तो
गलगण्ड रोग दूर होता है ॥ २० ॥

तिक्तालाडुफले पक्वे सप्ताहमुपितं ज-
लम् । मद्यं वा गलगण्डघ्नं पानात्पथ्या-
न्नसेविनः ॥ २१ ॥

कढवी लौकीके पके फलमे जल अथवा मदिराको भरकर सात दिनतक रक्खा रहने देवे. फिर इसको पान करे और पथ्य भोजन करे तो अघश्य गलगण्ड रोग दूर होता है ॥ २१ ॥

कर्णयुग्मबाहिः सान्धिरल्पाभ्यासे स्थितश्च यत् । उपर्युपरि तच्छिन्द्याद्गलगण्डे शिरात्रयम् ॥ २२ ॥

दोनो कानोके बाहरकी संधिके निकटके ऊपर भागमे तीन शिरा स्थित है, उनको धीरे २ छेदनेसे गलगण्ड रोग दूर होता है ॥ २२ ॥

हिंसाद्यतैल ।

**हिंसावचागुडूचीत्रिफलाऽनलदारु-
पिप्पलीककैः । भृङ्गस्वरसैः सिद्धं
तैलं गलगण्डजिन्मधुना ॥ २३ ॥**

हीस, वच, गिलोय, त्रिफला, चीता, देवदारु और पीपल इनके कल्कके द्वारा भांगरेके स्वरसमे तिलके तेलको पकावे। इस तेलको शहदके साथ सेवन करनेसे गलगण्ड रोग दूर होता है ॥ २३ ॥

अमृताद्यतैल ।

**तैलं पिबद्वामृतवल्लिनिम्बहिंसाह्वया-
वृक्षकपिप्पलीभिः । सिद्धं बलाभ्या-
श्च सदेवदारु हिताय नित्यं गलगण्ड-
रोगी ॥ २४ ॥**

गिलोय, नीम, हीस, पीपल, खिरैटी और देवदारु इनके कल्कके द्वारा तेलको सिद्ध करे। यह तेल-गलगण्डरोगियोको सदैव हितकारी है ॥ २४ ॥

शाखोटाद्य तैल ।

**प्रियंगुयष्टीमधुकं सकुष्ठं सपिप्पलीच-
न्दनमुत्तनिम्बम् । कल्कं विनिक्षि-
प्य विपाच्य तैलं चतुर्गुणे नस्यवि-
धिप्रयुक्तम् । शाखोटवल्कस्वरसे च
सिद्धं हन्यात्प्रवृद्धं गलगण्डरोगम् २५ ॥**

फूलप्रियंगु, मुलैठी, कूट, पीपल, चन्दन, नागर-
मोथा और नीम इन औषधियोके कल्कके द्वारा
चौगुने सिंहोडे वृक्षकी छालके स्वरसमे तेलको पकावे।
यह तेल नस्य द्वारा प्रयोग करनेसे अत्यन्त बढेहुए
गलगण्ड रोगको दूर करता है ॥ २५ ॥

काञ्चनारगुग्गुलुगुटिका ।

**त्रिफलायास्त्रयो भागा व्योषस्ताद्वि-
गुणो मतः । तस्माच्च द्विगुणं देयं का-
ञ्चनारस्य वल्कलम् ॥ २६ ॥ एको-
कृते तु चूर्णेऽस्मिन्समो देयोऽथ
गुग्गुलुः । क्षौद्रस्य तु ततो दद्याद्दश-
भागान्विचक्षणः ॥ २७ ॥ नाडीत्रणेषु
सर्वेषु गलगण्डे तथैव च । सर्वासु
गण्डमालासु गुटिकेयं प्रशस्यते ॥ २८ ॥**

त्रिफला ३ भाग, त्रिकुटा ६ भाग और उससे
दुगुनी कचनारकी छाल-सबको एकत्र पीस कूट कर
चूर्ण बनालेवे और सब चूर्णकी बराबर गूगल लेवे।
सबको एकजीव करले फिर दशगुने मिलाकर गोली
बनावे। यह गोली-सर्वप्रकारके नाडीत्रण, सर्व-
प्रकारके गलगण्ड और सर्वप्रकारकी गण्डमालाओमे
हितकारी है ॥ २६—२८ ॥

पथ्य ।

**यवमुद्गपटोलादिकटुर्लक्षश्च भोजनम् ।
छर्दिश्च रक्तमुक्तिश्च गलगण्डे प्रयोज-
येत् ॥ २९ ॥**

जौ, मूंग, पटोलादिफल, कटु और लक्ष पदार्थोंका
भोजन, वसन और रक्तमोक्षण ये सब गलगण्ड रोगमे
प्रयोग करने चाहिए ॥ २९ ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकाया
गलगण्डचिकित्साधिकार.
समाप्त ॥ ४४ ॥

अथ गण्डमालारोगाधिकारः ।



गण्डमाला और अपचीके लक्षण ।

कर्कन्धुकोलामलकप्रमाणैः कक्षांस-
मन्यागलवङ्क्षणेपु । भेदः कफाभ्यां
चिरमन्दपाकैः स्याद्गण्डमाला बहु-
भिस्तु गण्डैः ॥ १ ॥ ते ग्रन्थयः के-
चिद्वाप्तपाकाः स्रवन्ति नश्यन्ति
भवन्ति चान्ये । कालानुबन्धं चिर-
मादधाति सेवापचीति प्रवदन्ति के-
चित् ॥ २ ॥

भेद और कफसे उत्पन्न हुए कोख, कवे, गर्दन,
कंठ और वक्ष्यण देशमें छोटे घेर या बड़े घेर अथवा
आमलेके समान बहुतकालमें धीरे धीरे पकनेवाली
ऐसी बहुतसी गाँठे होती है, उनको गण्डमाला कहते
हैं । अब गण्डमालाका जो भेद अपची है उसके
लक्षण कहते हैं । उपर्युक्त गण्डमालाकी ग्रन्थि पके
नहीं या पक जानेपर उसमेंसे राध बहे, कोई कोई
नष्ट होजाय और कोई दूसरी नवीन उत्पन्न हो ऐसी
पीड़ायुक्त बहुत कालतक रहनेवाली ग्रन्थिको अपची
कहते हैं ॥ १ ॥ २ ॥

साध्य और असाध्य लक्षण ।

साध्याः स्मृताः पीनसपार्श्वशूलका-
सज्वरछर्दियुतास्त्वसाध्याः ॥ ३ ॥

उक्त लक्षणोंवाली अपची साध्य है । यदि इसमें
पीनस, पार्श्वशूल खाँसी, ज्वर और छर्दि ये उपद्रव
हो तो असाध्य जानना ॥ ३ ॥

गण्डमालाकी चिकित्सा ।

सर्षपारिष्टपत्राणि दग्ध्वा भल्लातकैः
सह । छागमूत्रेण संपिष्टमपचीघ्नं प्र-
लेपनम् ॥ ४ ॥

सरसों, नीमके पत्ते और भिलवे इनको एकत्र
जलाकर भस्म कर लेवे । इसको बकरीके मूत्रमें पीस
कर लेप करनेसे अपचीरोग दूर होता है ॥ ४ ॥

अश्वत्थकाष्ठं निचुलं गवां दन्तश्च
दाहयेत् । वाराहमज्जसंयुक्तं भस्म
हन्त्यपचीव्रणान् ॥ ५ ॥

पीपलकी छाल, जलवेत और गोका दाँत इनको
एकत्र जलाकर सुअरकी चर्चामें मिलाकर लेप
करनेसे अपचीके व्रण आरोग्य होते हैं ॥ ५ ॥

वनकार्पासजं मूलं तंडुलैः सह यो-
जितम् । पक्काज्ये पोलिकां खादेद्-
पचीनाशनाय च ॥ ६ ॥

वनकपासकी जड़को चाबलोमें मिलाकर दोनोकी
एकत्र पिट्टी बनावे, फिर उस पिट्टीकी घीमें पूरी
बनावे । यह पूरी-अपचीरोगको दूर करती है ॥ ६ ॥

अलम्बुषादलौद्भूतं स्वरसं द्विपलं पि-
बेत् । अपच्या गण्डमालायाः काम-
लायाश्च नाशनम् ॥ ७ ॥

अलम्बुषा (गोरखमुडी) के पत्तोंके ८ तोले
स्वरसको पान करनेसे अपची, गण्डमाला और
कामला रोग दूर होता है ॥ ७ ॥

मणिबन्धोपरिष्ठाढा कुर्ग्याद्रैखात्रयं
भिषक् । अङ्गुलान्तरितं सम्यगप-
चीनां निवृत्तये ॥ ८ ॥

अपचीरोगमें हाथके पहुँचके ऊपर और अगुलि-
योके बीचमें वैद्य शस्त्रसे तीन रेखा कर देवे तो
अपचीरोग दूर होता है ॥ ८ ॥

चन्दनाद्यतैल ।

चन्दनं साभया लाक्षा वचा कटुक-
रोहिणी । एतैस्तैलं शृतं पीतं समूला-
मपचीं जयेत् ॥ ९ ॥

चन्दन, हरड, लाख, वच और कुटकी इनके
कल्कके द्वारा तैलको पकावे । इस तैलको सेवन कर-
नेमें मूलसहित अपचीरोग दूर होता है ॥ ९ ॥

व्योपाद्यतैल ।

व्योषं विडङ्गं मधुकं सैन्धवं देवदारु
च । एभिस्तैलं शृतं नस्यात्कृच्छ्रामि-
त्यपचीं जयेत् ॥ १० ॥

त्रिकुटा, वायापिडग, सुलंठी, संधानगर और
देवदारु इनके कल्कके द्वारा तेलको पकाकर नस्य
देनेसे अत्यंत कष्टसाध्य अपची रोग दूर होता
है ॥ १० ॥

काकादन्यादितैल ।

काकादनीशिफाकल्केर्निर्गुड्याः स्व-
रसैः शृतम् । आरनालेश्च कटुकं तैलं
स्यादपचीहरम् ॥ ११ ॥

काकादनीकी जड़के कल्कके द्वारा निर्गुण्टीके
स्वरसमे और कौजीमे कडेव तेलको पकावे । यह
तेल-अपचीरोगको हरता है ॥ ११ ॥

महाअजमोदाद्यतैल ।

अजमोदा ससिंदूरं श्रीवासं रजनी-
द्रयम् । क्षारद्रयमपामार्गं हरितालं
मनःशिलाः ॥ १२ ॥ आर्द्रकागुरु
वा शुण्ठी जालिनी सेन्द्रवारुणी ।
सर्वे द्रव्याः समानाः स्युर्भागाश्चा-
र्द्धपलोन्मिताः ॥ १३ ॥ छागेनाष्टगु-
णेनैव मूत्रेण मृदुवह्निना । कटुतैलं
पचेद्देभिः स्तुह्यर्कपयसा सह ॥ १४ ॥
उत्पाट्यमानामपचीं नस्याद्विपर्य-
ये नृणाम् । उत्पन्नामामपकाश्च न-
स्याभ्यङ्गेन नाशयेत् ॥ १५ ॥ वि-
शीर्णकुथितात्यर्थं निर्गन्धा पूयवा-
हिनी । चिरजाऽसाध्यकल्पाऽपि तैले-
नानेन साध्यते ॥ १६ ॥ युक्ताहार-
विहारेण नस्यदानेन चैव हि । रो-
हिता क्षिप्रमेवं हि सप्तरात्रान्न सं-
शयः ॥ १७ ॥

अजमोद, सिन्दूर, श्रीवासगोद, हलदी, दारुहलदी,
जवाखार सजी, चिरचिटा, हरताल, मेनशिल,

अदरग, अगर, सोंठ, कड़ुतीतोरुई और इन्द्रायन ये
प्रत्येक आपसि दो दो तोले लेकर कन्क बनाये । फिर
इस कन्कमे बकरीका मूत्र ८ भाग, शृङ्गका दूध और
आकका दूध समान भाग और कडवा तेल एक प्रस्थ
सबको गन्धाधिधिमं मिलाकर तेलको पकावे । इस
तेलको नस्य और अभ्यंग कर्म्ममें प्रयोग करनेमें
कच्ची और पकी मद्य प्रकारकी अपची तथा जो मट
गई हो, जिसमेंमें अत्यंत राग बढ़ती हो तथा जिम-
में अधिकतर पीडा हो और दुर्गव आती हो, बहुत
दिनोंकी पुरानी और असाध्य अपची भी नष्ट होजाती
है । उस तेलकी विधिपूर्वक नाम देनेमें और विधि-
पूर्वक इसपर जाहार विहार करनेमें सात दिनमें ही
अपचीरोग अवश्य दूर होता है ॥ १२-१७ ॥

माक्षिकाद्वयः सकृत्पीतः काथो वरु-
णमूलजः । गंडमालां हरत्याशु चि-
रकालानुबन्धिनीम् ॥ १८ ॥

वरनेकी छालको पीसकर काथ बनाकर शहद
मिलाकर पान करनेसे बहुत दिनोंकी पुरानी गण्ड-
माला दूर होती है ॥ १८ ॥

पिप्पा ज्येष्ठचम्बुना पेयाः काश्चना-
रत्वचः शुभाः । विश्वभेषजसंयुक्ता
गंडमालाहराः पराः ॥ १९ ॥

कचनारकी छाल और सोंठ इनको एकत्र चावलके
जलमें पीसकर पान करनेसे गण्डमालारोग दूर होता
है ॥ १९ ॥

पलमर्द्धपलं वापि पिप्पा तंडुलवारि-
णा । काश्चनारत्वचः पीत्वा मुच्यते
गंडमालया ॥ २० ॥

चार तोले अथवा दो तोले कचनारकी छालको ले
कर चावलके जलके साथ पीसकर पान करनेसे
गण्डमाला रोग दूर होता है ॥ २० ॥

जिह्वाधः पार्श्वयोर्मूलाच्छिरा द्वाद-
श कीर्तिताः । तासां स्थूलशिरे द्वे
तु छिद्यते च शनैः शनैः ॥ २१ ॥ ब-
दिशेनैव संगृह्य कुशपत्रेण बुद्धिमान् ।

स्रुते रक्ते व्रणे तस्मिन्दद्यात्सगुडमा-
द्रकम् । भोजनं चानभिष्यन्दि यूषः
कौलित्थमिष्यते ॥ २२ ॥

जीभके पार्श्वके अधोभागमे १२ नसे है उनमेकी
दो स्थूल शिराओको वडिश नामका यत्र होता है
जैसी मछली कुण्डी होती है उससे ग्रहण कर
धीरे २ कुशपत्रनामक गन्धसे छेदन करे, जब
रुधिर निकलने लगे तब उसमे गुडके साथ
अदरखको मिलाकर लगावे तथा अनभिष्यन्दि
पदार्थोंका ओर कुलथीका यूष पथ्य देवे ॥२१॥२२॥

नस्यं वै रेचनं योज्यं वमनञ्च प्रयोज-
येत् । गंडमालाप्रशान्त्यर्थं यवमु-
द्गादिभोजनम् ॥ २३ ॥

गण्डमालारोगमें नस्य, विरेचन, वमन और जौ,
मूंग आदिका भोजन ये सब हितकारी हैं ॥ २३ ॥

वचाद्यघृत ।

वचा शटी हरिद्रे द्वे देवदारु महौ-
षधम् । हरीतकी चातिविषा मुस्तके-
न्द्रयवाः समाः ॥ २४ ॥ एतान्दश-
पलान्भागान्श्रुद्रोणेऽम्भसः पचेत् ।
पादशेषे जले तस्मिन्घृतप्रस्थं विपा-
चयेत् ॥२५॥ कल्कं दत्त्वा पलोन्मानैः
क्वाथ्यद्रव्यैः सुपेषितैः । प्रक्षिप्य त्रिगुणं
क्षौद्रं व्योषचूर्णात्पलानि षट् ॥ २६ ॥
यथाकालं पिबेन्मात्रां यथेष्टाहारमेव
च । गंडमालां निहन्त्याशु बहुवर्षस-
मुद्भवाम् ॥ २७ ॥ कासं श्वासं प्रति-
श्यायं गलगंडं सुखामयम् ॥

वच, कचूर, हलदी, दारुहलदी, देवदारु, सोंठ,
हरद, अतीस, नागरमोथा और इन्द्रजी ये प्रत्येक औ-
षधि दश दश पल लेकर चार द्रोण जलमें पकावे ।
जब पकते पकते चौथाई भाग जल बाकी रह जाय
तब उतारकर छान लेवे । फिर इस काथमं उपर्युक्त
काथकी प्रत्येक औषधिका कल्क चार २ तोले, घृत
१ प्रस्थ, त्रिकुटेका चूर्ण २४ तोले और गहद आधसेर
मिलाकर यथाविधिसे घृतको पकावे । इसको यथास-
मय रोगीके बलाबलको विचारकर सेवन करावे और

इसपर यथेष्ट भोजन देवे । यह तेल-बहुत पुरानी
गण्डमाला, खासी, प्रतिश्याय और गलगण्ड तथा
समस्त मुखरोगको दूर करता है ॥ २४ ॥ २५ ॥
॥ २६ ॥ २७ ॥

चक्रमर्दादिसिन्दूरतैल ।

चक्रमर्दकमूलस्य कल्कं कृत्वा वि-
पाचयेत् । केशराजरसे तैलं कटुकं
मृदुनाग्निना ॥ २८ ॥ पक्त्वा शेषे वि-
निःक्षिप्य सिन्दूरमवतारयेत् । एत-
तैलं निहन्त्याशु गंडमालां सुदारु-
णाम् ॥ २९ ॥

चक्रवर्दी जडका कल्क बनाकर उसके द्वारा
कुकरभांगरेके रसमे कडेवे तेलको पकावे । जब पक
कर सिद्ध हो जाय तब सिन्दूर डालकर उतार लेवे ।
यह तेल दारुण गण्डमालाको दूर कर देता है २८॥२९

निर्गुण्डीतैल ।

निर्गुण्डीस्वरसे तैलं लाङ्गलीमूलक-
लिकतम् । तैलनस्यान्निहन्त्याशु गं-
डमालां सुदारुणाम् ॥ ३० ॥

कलिहारीकी जडका कल्क और निर्गुण्डीका स्वरस
इनके द्वारा तेलको पकावे । इस तेलकी नास देनेसे
दारुण गण्डमाला रोग दूर होता है ॥ ३० ॥

गुञ्जामूलतैल ।

गुञ्जामूलफलेस्तैलं तोये द्विगुणिते प-
चेत् । नस्याभ्यङ्गेन शमयेद्गंडमालां
सुदारुणाम् ॥ ३१ ॥

घुंघुचीकी जड और फलोके दूने काथमे तेलको
पकाकर उसकी मालिश अथवा नास देनेसे दारुण
गण्डमाला रोग दूर होता है ॥ ३१ ॥

तुम्बीतैल ।

विडङ्गानलसिन्धूत्थरासोग्राक्षारदा-
रुभिः । तैलं चतुर्गुणं सिद्धं कटुतु-
म्बीजलेन वा ॥ गंडमालापहं श्रेष्ठं
गलगंडहरं परम् ॥ ३२ ॥

वायविडग, चीता, सैवानमक, गयसन, वच, जवाखार और देवदारु इनके कल्कके द्वारा चौगुने कडवी तोम्बीके स्वरस अथवा काथमे तेलको पकावे । यह तेज गण्डमाला और गलगण्डको नष्ट करता है ३२

शाखोटकविलवाद्यतेल ।

गंडमालापहं तैलं सिद्धं शाखोटक-
त्वचा । विलवाश्वमारनिर्गुडीसाधि-
तं चापि नावनम् ॥ ३३ ॥

सिहोडेकी छाल, बेलगिरी, कनेर और निर्गुण्डी इनके कल्कके द्वारा तेलको पकावे। इस तेलको नम्यादिकर्मोमे प्रयोग करनेसे गण्डमाला रोग दूर होता है ॥ ३३ ॥

लुच्छुन्दरीतैल ।

लुच्छुन्दर्या विपक्वन्तु क्षणात्तैलवरं
ध्रुवम् । अभ्यङ्गात्राशयेन्नृणां गंड-
मालां सुदारुणाम् ॥ ३४ ॥

लुच्छुन्दरको तेलमे पकाकर उस तेलको अश्मगमे प्रयोग करनेसे दारुण गण्डमालारोग दूर होता है ॥ ३४ ॥

त्रिफलादिगुग्गुलु ।

त्रिफला त्रिवृता दन्ती नीलिनी च-
तुरंगुलैः । पञ्चविंशतिसंख्याकैः प्रत्ये-
कं पलमात्रया ॥ ३५ ॥ कथितैः कुट्टितै-
रेभिश्चतुर्द्रोणे प्रमाणतः । पचेत्तु सलि-
ले तावद्यावद्द्रोणश्च शोषितम् ॥ ३६ ॥
पञ्चाशत्तत्र निःक्षिप्य गुग्गुलोस्तु
पलान्यपि । काथयेत्सघनं यावत्पुन-
स्तत्पूर्ववत्पचेत् ॥ ३७ ॥ ततस्तस्मिन्व-
नीभूते त्वगेलानागकेशरन् । त्रिकटु-
त्रिफलापर्णीयवानीजीरकाणिच ॥ ३८ ॥
पिप्पलीमूलदहनहपुषाकृष्णजीरक-
म् । बाष्पिका चाजमोदा च तित्ति-
डी चाम्लवेतसम् ॥ ३९ ॥ सौवर्च-
लयुतं कृत्वा श्लक्ष्णचूर्णं विनिक्षिपे-
त् । प्रत्येकमर्द्धपलिकैर्भागैः सम्यग्वि-

चक्षणः ॥ ४० ॥ ततोऽक्षमात्रां गुटिकां
भक्षयेच्च दिने दिने । गंडमालार्धद्र-
न्थिजङ्घास्तम्बोदरादितः ॥ ४१ ॥

त्रिफला, गिमोत, दन्ती, नीलिनीके बीज और अण्डकी जट ये प्रत्येक औषधि पचास २ पल लेकर कूटकर चार द्रोण जलमे पकावे । जब पकते २ चौथाई भाग जलमे एक द्रोण जल शेष रह जाय तब उत्तारकर छान लेवे । फिर उस छायामे ५० पल गुग्गुलु डाल कर पकावे जब गुग्गुलु गलजाय उत्तारकर फिर छाने और फिर आगपर पकावे जब पकने पकने गाटा हो जाय तब उसमे दालचीनी, उल्याची, नागकेजूर, त्रिकुटा, त्रिफला, जालिपर्णी, मुद्गपर्णी, अजवायन, जीरा, पीपलामूल, चीता, हाउवेर, कालाजीरा, हिगुपर्णी, अजमोद, तित्तिडी, अमलवेत और कालानमक ये प्रत्येक औषधि दो २ तोले लेकर वारीक पीसकर डाल देवे फिर सब कूटकर एक दो तोलेकी गोलियाँ बना लेवे इनमेंमे प्रतिदिन एक गोली खान । यह गोली-गण्डमाला, अर्बुद, ग्रन्थि, ज्वान्तम्भ और आर्द्रतरोग इन सबको दूर करती है ॥ ३५-४१ ॥

अनेनेव विधानेन गिरिजं वा प्रयो-
जयेत् ॥ ४२ ॥

अथवा इसी प्रकारसे उक्त औषधियोंमे गुग्गुलुके स्थानमे या इसी प्रयोगसे गिलाजोतको डाल कर गोली बनाकर सेवन करे ॥ ४२ ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां गण्डमाला-
विकार समाप्त ॥ ४५ ॥

अथ ग्रन्थिरोगाधिकार ।

वातादयो मांसमसृग्प्रदुष्टाः संपूष्य
मेदश्च तथा शिराश्च । वृत्तोन्नतं विप्र-
थितं तु शोथं कुर्वन्त्यतो ग्रन्थिरिति
प्रदिष्टः ॥ १ ॥

अत्यत दुष्ट हुए वातादिदोष-मांस, रुधिर, मेद और नसोको वृषित करके गोल, ऊँची और गाठके समान सुजनको उत्पन्न कर देते है उसको ग्रन्थिरोग कहते है ॥ १ ॥

वातजग्रन्थिके लक्षण ।

आयस्यते वृश्च्यति तुद्यते च प्रत्य-
स्यते मथ्यति भिद्यते च । कृष्णो मृदु-
र्वास्तिरिवातनश्च भिन्नः स्रवेच्चानि-
लजोऽस्त्रमच्छम् ॥ २ ॥

वातजग्रन्थिरोगं ग्रन्थि विचती और बढ़ती हुई मालूम होती है, तोड़नेकीसी पीडा जान पड़े, छेदन सरीखी तथा उठाकर फेननेके समान जान पड़े, मयनेके समान मालूम हो, फोड़ने सरीखी पीडा हो, ग्रन्थि काली, क्रोमल एव मसकके समान भरीसी दीखे और उसके फूटनेमें स्वच्छ रुधिर निकले ॥२॥

पित्तजग्रन्थिके लक्षण ।

दग्धह्यते शुष्यति चुष्यते च पापच्य-
ते प्रज्वलतीव चापि । रक्तः सपीतो-
ऽप्यथवापि पित्ताद्भिन्नः स्रवेदुष्णम-
तीव चाम्गम् ॥ ३ ॥

पित्तजग्रन्थिमें दाह होती है, सोखनेके समान और चूसने सरीखी पीडा हो, एव पकनेके समान और जलनेके समान पीडा हो, और वह लाल पीले रंगकी होती है उसके फूटनेपर उसमेंसे रक्तके रंगके समान राध पथवा दुष्ट रुधिर स्रवता है ॥३॥

कफजग्रन्थिके लक्षण ।

शीतो विवर्णोऽल्परुजोऽतिकंडुः पा-
पाणवत्संहननोपपन्नः । चिराभिवृ-
द्धिश्च कफप्रकोपाद्भिन्नः स्रवेच्छुक्ल-
वनं च प्यम् ॥ ४ ॥

कफजग्रन्थि शीतल, शरीरके वर्णके समान वर्ण-
वाली, किंचित् पीडायुक्त, अत्यन्त खुजलीवाली, पत्थ-
रके समान कठिन और बड़ी, बहुत देरमें बढ़ने और
पकनेवाली होती है एव फूटनेसे उसमें श्वेत और
गाढी राध निकलती है ॥ ४ ॥

मेदजग्रन्थिके लक्षण ।

शरीरवृद्धिक्षयवृद्धिहानिः स्निग्धो
महान्कंडुयुतोऽरुजश्च । मेदः कृतो

गच्छति चात्र भिन्ने पिण्याकसर्पिः-
प्रतिमन्तु भेदः ॥ ५ ॥

मेदजग्रन्थि शरीरके बढ़नेसे बड़े और शरीरके
घटनेसे घटे तथा चिकनी, बड़ी, खुजलीयुक्त और
अल्पपीडावान होती है । इसके फूटनेपर इसमेंसे
खलके समान और घृतकी सदृश मेद निकलता
है ॥ ५ ॥

शिराजग्रन्थिके लक्षण ।

व्याग्रामजातेरबलस्य तैस्तैराक्षिप्य
वायुश्च शिराप्रतानम् । सङ्कोच्य सं-
पीड्य विशोष्य चापि ग्रन्थि करो-
त्युन्नतमाशु वृत्तम् ॥ ६ ॥

निर्वल मनुष्य अत्यंत बलके अर्थात् परिश्रमके
कार्य करे तब उसके वायु कुपित होकर नसोंके
जालको संकुचित, पीडित और सुखाकर ऊंची तथा
गोल ग्रन्थिको उत्पन्न करता है ॥ ६ ॥

साध्यासाध्यलक्षण ।

ग्रन्थिः शिराजः स तु कृच्छसाध्यो
भवेद्यदि स्यात्सरुजश्चलश्च । अरुक्स
एवाप्यचलो महांश्च मर्मोत्थितश्चापि
विवर्जनीयः ॥ ७ ॥

यदि शिराजग्रन्थि पीडायुक्त और चंचल हो तो
कष्टसाध्य और जो पीडारोहित, निश्चल तथा बड़ी
और मर्मस्थानोमें उत्पन्न हुई हो तो असाध्य है
॥ ७ ॥

ग्रन्थिकी चिकित्सा ।

ग्रन्थिष्वथामेषु भिषग्विदध्याच्छोथ-
क्रियां विस्तरतो विधिजः । रक्षेद्बलं
चास्य नरस्य नित्यं तद्रक्षितं व्या-
धिबलं निहन्ति ॥ ८ ॥

वैद्य अपक ग्रथिमें प्रथम विधिपूर्वक शोथनाशक
चिकित्सा करे । इसमें नित्य रोगीके बलकी रक्षा
करनी चाहिए, क्योंकि बलकी रक्षा करनेसे व्याधिका
बल घट जाता है ॥ ८ ॥

हिंसा सरोहिण्यमृताऽथ भार्गी स्यो-
नाकबिल्वाशुरुकृष्णगन्धाः । गोपि-

त्तपिष्टाः सह तालपत्र्या ग्रन्थैर्विधे-
योऽनिलजे प्रलेपः ॥ ९ ॥

हीस, कुटकी, गिलोय, भारंगी, स्योनापाठा, बेल-
गिरी, अगर, सहिजना और मुसली इन सबको
एकत्र गोपित्तमे पीस कर प्रलेप करनेसे वातजप्रथि
रोग दूर होता है ॥ ९ ॥

कुर्थ्यात्स्वेदोपनाहांश्च तथान्यान्सि-
द्धलेपनान् ॥ १० ॥

ग्रन्थिरोगमे स्वेद और उपनाह कर्म करे तथा
अन्यान्य सिद्ध प्रलेपादिक प्रयोग करे ॥ १० ॥

विदार्य वापक्रमपोह्य पूयं प्रक्षाल्य
बिल्वार्कनरेन्द्रतोयैः । तिलैश्च पश्चा-
द्गुलपत्रभिश्चैः संस्वेदयेत्सैन्धवसंप्रयु-
क्तैः ॥ ११ ॥

पक्रमन्थिको गन्धसे चीर कर उसकी राध निकाल
देवे और फिर बेल, आक और अमलतास इनके
पत्तोंका काथ बनाकर उससे व्रणको धोवे तथा तिल
और अण्डके पत्तोंको एकत्र पीसकर उसमें सैन्धानमक
मिलाकर स्वेद देवे ॥ ११ ॥

शुद्धं व्रणश्चाप्युपरोहयेत् तैलेन रा-
स्ना सरलान्वितेन । विडङ्गयष्टीमधु-
कामृताभिः सिद्धेन वा क्षीरसमन्वि-
तेन ॥ १२ ॥

ग्रन्थिके शुद्ध व्रणको रायसन, वूपसरल, वायवि-
डग, मुलैठी और गिलोय इनके द्वारा दूधमे तेलको
पकाकर उस तेलसे भरे ॥ १२ ॥

जलायुकाः पित्तकृते हितास्तु क्षी-
रोदकाभ्यां परिषेचनञ्च । काकोलि-
वर्गस्य तु शीतलानि पित्ते कषाया-
णि सशर्कराणि ॥ १३ ॥ द्राक्षारसे-
नेक्षुरसेन चापि चूर्णं पिबेद्वापि हरी-
तकीनाम् ॥ १४ ॥

पित्तजग्रन्थिरोगमे प्रथम जौक लगवाना हितकारी
है । फिर दूधमे जल मिला कर भेचन करे । तथा

काकोल्यादि वर्गकी शीतल औषधियोंके द्वारा काथ
बनाकर उसमें मिश्री मिलाकर सेवन करे । अथवा
दारुका रस और ईखका रस इनमें हरटका चूर्ण
ढालकर पान करे ॥ १३ ॥ १४ ॥

मधूकजम्बार्जुनवेनसानां त्वग्भिः
प्रदेहानवधारयेच्च । सशर्करैर्वा तृण-
मूलकलकैर्दिह्यादभीक्ष्णं मुचुकुन्दज-
वा ॥ १५ ॥ विदार्य चा पक्रमपोह्य
पूयं धोतं कपायेण वनस्पतीनाम् ।
तैलैः सयष्टीमधुकेर्विशोधय सर्पिः
प्रयोज्यं मधुकैर्विपक्रमम् ॥ १६ ॥ हते-
षु दोषेषु यथालुप्यर्वा ग्रन्थौ भिपक्
श्लेष्मसमुत्थिते च । स्विन्नस्य विम्ला-
पनमेव कुर्थ्यादंगुष्ठलोहोपलवेणुद-
ण्डैः ॥ १७ ॥

मुलैठी, जामुन, अर्जुन और वेत इनकी छालको
एकत्र पीस कर प्रलेप करे । अथवा तृणपचमूलके
कलकमे खोंड मिलाकर अथवा मुचुकुन्दके फूलोंको
पीसकर प्रलेप करे । पक्रमन्थिको चीर कर वनाप-
धियोंके काथसे धोकर राधको अलग कर देवे, पश्चात्
मुलैठीके कलकसे तेलको पका कर उस तेलके द्वारा
शोधन करे । अथवा मुलैठीके कलकके द्वारा घृतको
पका कर प्रयोग करे तथा दोषोंको हरण करके फिर
क्रमानुसार चिकित्सा करे । यह सब कफकी ग्रन्थिमें
चिकित्सा करनी चाहिए । कफकी ग्रन्थिमें प्रथम
स्वेद देकर वैद्य अंगूठा, लोहा, पत्थर, वाँस
और लकड़ी इनसे विम्लापन कर्म करे ॥ १५ ॥
॥ १६ ॥ १७ ॥

विकङ्कतारग्वधकाकणन्तीकाकादनी-
तापसवृक्षमूले । आलेपयेदेनमलाबु-
भाङ्गीकरञ्जकालामदनैश्च विद्वान् १८ ॥

विककत (कंटाई), अमलतास, चिराचिटा,
कौआठोडी और हिगोटकी जड़ इन सबको एकत्र
पीस कर प्रलेप करे अथवा कडवी तोम्बी, भारंगी,
करंज, निसोत और मैनफळ इनको एकत्र पीस कर
प्रलेप करे ॥ १८ ॥

मेदःसमुत्थितं ग्रन्थि तिलकल्कैः प्र-
दिह्य च । संछाद्य वस्त्रपट्टेन स्वेदये-
त्तप्तलोहकैः ॥ पाटयित्वा तु शस्त्रेण
हत्वा मेदोऽग्निना दहेत् ॥ १९ ॥

मेदजग्रन्थिरोगमे तिलोंके कल्कका अथवा तिलकी
खलको पीस कर प्रलेप करे तथा उसको वस्त्रसे
आच्छादित करके अग्निमे तप्त किये हुए लोहेके द्वारा
स्वेद देवे, एव शस्त्रसे चौर मेदको निकालकर और
अग्निसे दग्ध करे ॥ १९ ॥

ग्रन्थीनमर्मप्रभवानपक्वानुद्धृत्य चा-
ग्निं विदधीत वैद्यः । क्षारेण चैतान्प्र-
तिसारयेच्च संलिख्य संलिख्य यथो-
पदेशम् ॥ २० ॥

जो ग्रन्थि मर्मस्थानोमे उत्पन्न नहीं हुई है या
पकी नहीं है, उन सबको छेद करके उस स्थानमे
अग्निसे दग्ध अथवा क्षारादिकर्म प्रयोग करे ॥ २० ॥

लेपनं शंखचूर्णेन सह मूलस्य भस्म-
ना । कफार्बुदापहं कुर्याद्ग्रन्थ्यादिपु
विशेषतः ॥ २१ ॥

शंखका चूर्ण और सहिजनेके मूलकी भस्म इनको
एकत्र मिला कर प्रलेप करनेसे कफका अर्बुद और
विशेष करके ग्रन्थिरोग दूर होता है ॥ २१ ॥

ग्रन्थीनुद्धृत्य वा पक्वं वह्निकर्म प्रयो-
जयेत् । पश्चात्क्षारेण संशोध्य व्रण-
वत्समुपाचरेत् ॥ २२ ॥

अपक्वग्रन्थिको काट कर अग्निके द्वारा दग्ध करे,
पश्चात् क्षारसे संशोधन करके व्रणके समान चिकि-
त्सा करे ॥ २२ ॥

शिराग्रन्थि परित्यज्य शेषं यत्नेन
साधयेत् ॥ २३ ॥

एक शिराजग्रन्थिको छोड़कर शेष सर्व प्रकारकी
ग्रन्थियोंकी यत्नपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २३ ॥

दन्तीचित्रकमूलत्वक् सुधार्कपयसी
गुडः । भल्लातकास्थिकाशीसं लेपो
भिन्द्याच्छिलामपि ॥ २४ ॥

दन्ती, चीतेकी जड़की छाल, यूहर अथवा आकका
दूध, पुराना गुड, भिलावेकी मींग और कसीस
इन सबको एकत्र पीस कर प्रलेप करनेसे ग्रन्थि छिन्न
होकर गिर जाती है ॥ २४ ॥

स्वर्जिकामूलकक्षारः शङ्खचूर्णसम-
न्वितः । प्रलेपे विहितः श्लक्ष्णो हन्ति
ग्रन्थ्यर्बुदादिकान् ॥ २५ ॥


सजी, मूलीका खार और शंखका चूर्ण इनको
एकत्र बारीक पीस कर लेप करनेसे ग्रन्थि और अर्बुद
रोग दूर होता है ॥ २५ ॥

यानि प्रतिद्वादश चांगुलानि भेदुश्च
वस्तिं परिवर्ज्य सम्यक् । विदार्य
मत्स्याण्डनिभानि वैद्यो विकृष्य
जालं पललं विदध्यात् ॥ २६ ॥

लिंग और वस्तिस्थानके वारह अंगुल स्थानको
अच्छे प्रकारसे छोड़ कर उसके निकटके स्थानको
शस्त्रसे चीरे । उस मछलीके अण्डके समान गोंठको
विधिपूर्वक चीरकर उसमेसे मांसके सफेद २ जालेको
निकाल देवे ॥ २६ ॥

इति श्रीवगसेने भापाटीकायां ग्रन्थिरोगा-
धिकार. समाप्तः ॥ ४६ ॥

अथर्बुदरोगाधिकारः ।



अर्बुदरोगका सम्प्राप्ति निदान ।
गात्रप्रदेशे क्वचिदेव दोषाः समूर्च्छि-
ता मांसमसृक्प्रदूष्य । वृत्तं स्थिरं
मन्दरुजं महान्तमनल्पमूलं चिरवृ-
द्धिपाकम् ॥ कुर्वन्ति मांसोच्छ्रयम-
त्यगाधं तदर्बुदं शास्त्रविदो वदन्ति ॥
॥ १ ॥ वातेन पित्तेन कफेन चापि र-

क्तेन मांसिन च मेदसापि । यज्जायते
तस्य च लक्षणानि ग्रन्थेः समानानि
सदा भवन्ति ॥ २ ॥

शरीरके किसी भागमें दूषित हुए वातादि दोष
माम और रक्तमें दूषित करके गोल, गिर, कोमल,
अल्प पीढायुक्त, बढी तथा गहरी जडवाली, ढेरमें
बढने और पकनेवाली ऐसी मासकी प्रथि शरीरके
ऊपर उत्पन्न होती है, उसको वेप अर्बुद कहते हैं ।
वात, पित्त, कफ, मास, रक्त और मेदा इन भेदोंसे
अर्बुद रोग छः प्रकारका होता है । उसके लक्षण
प्रथिके समान होने हैं ॥ १ ॥ २ ॥

रक्तार्बुदके संप्राप्ति लक्षण ।

दोषः प्रदुष्टो रुधिरं गिरासु संको-
च्य संपीड्य ततस्त्वपाकम् । स स्राव-
मुन्नहति मांसपिण्डं मांसांकुरैराचि-
तमाशु वृद्धिम् ॥ ३ ॥ करोत्यजघ्नं
रुधिरं सदृष्टमसाध्यमेकं रुधिरात्म-
कन्तु । रक्तक्षयोपद्रवपीडितत्वात्पां-
दुर्भवेत्सोऽर्बुदपीडितस्तु ॥ ४ ॥

अपने कारणोंसे दुष्ट हुए दोष गिरागत रुधिरको
सकुचित और पीडित कर मासके गोलको उत्पन्न
करते हैं । वह किचित् पकानेवाला तथा अल्पस्राव-
युक्त हो, एव मासांकुरोंसे व्याप्त और बहुत जल्दी
बढना है जिससे रुधिर नखे इसको रक्तार्बुद कहते
हैं । यह असाध्य है । रक्तार्बुदरोगीके रुधिरक्षयके
उपद्रवोंके होनेसे उसके शरीरका रंग पीला पड
जाता है ॥ ३ ॥ ४ ॥

मांसार्वुदके लक्षण ।

मुष्टिप्रहारादिभिरर्दितङ्गे मांसं प्रदु-
ष्टन्नयेच्च शोथम् । अवदनं स्निग्ध-
मनन्यवर्णमपाकमश्मोपममप्रचाल्य-
म् ॥ ५ ॥ प्रदुष्टमांसस्य नरस्य गाढ-
मेतद्भवेन्मांसपरायणस्य । मांसार्वु-
दन्त्वेतदसाध्यमुक्तं साध्येष्वपीमा-
नि विवर्जयेत् ॥ ६ ॥ संप्रसृतं मर्मणि
यच्च जातं स्रोतःसु वा यच्च भवेद-
चाल्यम् ।

मुष्टि आदिके प्रहारेमें शरीरमें जो पीडा होती है,
उस पीडामें मास दूषित होकर सृजनमें उत्पन्न करना
है वह सृजन पीडागहित हो, रिकती, शरीरके रंगके
समान हो, इसका पाक नहीं हो और पचनेके
समान स्थिर हो । जिस मनुष्यका मांस दूषित हो
जाय अथवा जो मनुष्य मर्द्वेन नाम रोग है उनके
यह अर्बुद रोग उत्पन्न होता है । यह मांसावर्ध असा-
ध्य है तथा सा च अर्बुदोंमें भी नियोज्य अर्बुद व्याप्य
है जिससे स्नात्र हो, जो मर्ममन्वातोमें उत्पन्न हुआ
हो अथवा नाभिकारिक दित्रोंमें उत्पन्न हुआ हो और
जो अचल हो ऐसा अर्बुद जमा यह ॥ ५ ॥ ६ ॥

अध्यर्बुदके लक्षण ।

यज्जायतेऽन्यत्वलु पृथजाने जेयं
तदध्यर्बुदमर्बुदज्ञः ॥ ७ ॥

प्रथम जिस स्थानमें अर्बुद उत्पन्न हुआ हो
उसीके ऊपर दूसरा अर्बुद उत्पन्न हो जाय तो
उसको अध्यर्बुद कहते हैं ॥ ७ ॥

द्विरर्बुदके लक्षण ।

यद्वन्द्वजानं युगपत्क्रमाद्वा द्विरर्बुदं
तच्च भवेदसाध्यम् ॥ ८ ॥

एक साथ दो अर्बुद अथवा एकके पश्चान् दूसरा
अर्बुद क्रमसे उत्पन्न हो उसको द्विरर्बुद कहते हैं ।
यह असाध्य है ॥ ८ ॥

अर्बुद न पकनेका कारण ।

न पाकमायान्ति कफाधिकत्वान्मेदो-
बहुत्वाच्च विशेषतस्तु । दोषस्थिर-
त्वाद्ग्रथनाच्च तेषां सर्वार्बुदान्येव नि-
सर्गतस्तु ॥ ९ ॥

कफकी अधिकतासे या विशेष करके मेदकी अधि-
कतासे एव दोषोंकी स्थिरतासे अथवा दोषोंके ग्रन्थि-
रूप होनेसे सर्वप्रकारके अर्बुद पकते नहीं हैं ॥ ९ ॥

अर्बुदकी चिकित्सा ।

जयेद्विद्रधिवत्पूर्वमर्बुदं प्रच्छनादि-
भिः । क्षाराग्निभ्यां दहेच्चापि प्रदेहै-
र्विविधैर्जयेत् ॥ १० ॥

अर्जुद्वारोगमे प्रथम विद्रधिके समान पंछने आदि लगवावे, तथा क्षार और अग्निके द्वारा दग्ध करे एवं अनेक प्रकारके प्रलेपादि प्रयोग करे ॥ १० ॥

कर्कारुकैर्वा रुकनारिकेलप्रियालपश्चां-
गुलबीजपूरैः । वातार्जुदं क्षौरवृ-
ताम्लसिद्धैरुष्णैः सतैलैरुपनाहयेत्तु
॥ ११ ॥

पेठा, वडीककडी, नारियल, चिरौजी, अड और विजैरानीवू इन सबको दूध, घी और कांजीमे मिलाकर इनके द्वारा तेलको पकावे । इस उष्ण तेलके द्वारा उपनाह कर्म करे । यह प्रयोग—वातार्जुदको नष्ट करता है ॥ ११ ॥

स्वेदं विदध्यात्कुशलस्तु नाड्या
शृङ्गेण रक्तं बहुशो हरेच्च । वातघ्न-
निर्ग्रहपयोऽम्लभागैः सिद्धां शताह्वां
त्रिवृतां पिबेद्वा ॥ १२ ॥

वातार्जुद्वारोगमे प्रथम वैद्य विधिपूर्वक स्वेद निकलवावे, अथवा सिंगी या तोषीसे रुधिर निकलवावे तथा वातनाशक काथ, दूध खटाई (कांजी) इत्यादिमे सौंफ अथवा निसोतको सिद्ध करके पान करे ॥ १२ ॥

स्वेदोपनाहा मृदुवस्तु पथ्याः पित्ताः
बुद्धे कायविरेचनञ्च । विवृष्य चोद्दु-
म्बरशाकगोजीपत्रैर्भृशं क्षौद्रयुतैः
प्रलिम्पेत् ॥ १३ ॥

पित्तजन्य अर्जुद्वारोगमे मृदुस्वेद, मृदुउपनाह, मृदु पथ्य और मृदुविरेचन देवे । तथा गूलर और गूलरके पत्तोंको गहदमे मिलाकर प्रलेप करे ॥ १३ ॥

सूक्ष्मीकृतैः सर्जरसप्रियंगुपतङ्गलो-
धार्जुनयष्टिकाहैः ॥ १४ ॥

राल, फूलप्रियंगु, पतंग, लोध, अर्जुन और मुलैठी इन सबको एकत्र बारीक पीसकर प्रलेप करनेसे अर्जुद रोग नष्ट होता है ॥ १४ ॥

शुद्धस्य जन्तोः कफजेऽर्जुदे तु रक्ते
च सित्ते च ततोऽर्जुदं तव । कपोत-

पारावतविद्धिमिश्रैः सकांस्यनीली-
शुक्लाङ्गलाख्यैः ॥ १५ ॥ सूक्ष्मैस्तु
काकादनमूलमिश्रैः क्षारप्रदिग्धैर-
थवा प्रादिह्येत् ॥ १६ ॥

कफज अर्जुद्वारोगमे वसन और विरेचनादिसे रोगीको शुद्ध करे, तथा रक्तज अर्जुद्वारोगमे प्रथम रक्तमोक्षण करावे । पश्चान् कवूतर और पारवेकी विष्टा, नीला थोथा, गंधक, कलिहारी और कौवाठोडीकी जड़ इन सबको बारीक पीसकर क्षार मिलाकर दग्ध करे । अथवा उपर्युक्त औषधियोंको एकत्र मिलाकर प्रलेप करे ॥ १५ ॥ १६ ॥

निष्पावपिण्याककुलतथकल्कैर्मांसप्र-
गाढैर्दधिमर्दितैश्च । लेपं विदध्यात्कृ-
मयां यथात्र लुञ्चन्त्यपत्यान्यथ म-
क्षिका वा । अल्पावशिष्टं कृमिभिः
प्रजग्धं लिखेत्ततोऽग्निं विदधीत
पश्चात् ॥ १७ ॥

लोविया, खल और कुलथीका कल्क इनको मांस और दहीमे मिलाकर खूब अच्छे प्रकारमे मर्दन करके लेप करनेसे कृमि और माक्षिकादि अपनी सन्तानोंको छोडकर भागजाते हैं । फिर कृमि आदिके खानेने बचे हुए अर्जुद्वारोगमे प्रथम लेखन पश्चात् अग्नि कर्म कराना योग्य है ॥ १७ ॥

अशेषदोषाणि हि नार्जुदानि करो-
ति तस्याशु पुनर्भवन्ति । नरानशे-
पाणि समुद्धरेत्तु हन्युः सशेषाणि
यथा विषाग्निः ॥ १८ ॥

अर्जुद्वारोगमे अल्प शेष रहे भी दोष फिरसे अर्जु-
दको उत्पन्न करते हैं इस कारण अर्जुद्वारोगमे कदापि दोषोंको शेष नहीं रखना चाहिये क्योंकि वह शेषदोष विष और अग्निके समान मनुष्यको मारदेते हैं ॥ १८ ॥

हरिद्रालोषपतङ्गगृहधूममनःशिलाः ।
मधुप्रगाढो लेपोऽयं मदोऽर्जुदहरः परः
॥ एतामेव क्रियां कुर्यादशेषां
शर्करार्जुदे ॥ १९ ॥

हलदी, लोध, पतंग, घरका धुआसा और मैन-शिल इन सबको एकत्र गृहमे मिलाकर लेप करनेसे मेदज अर्बुदरोग नष्ट होता है। इसी प्रकार अर्कुरार्बुदकी भी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १९ ॥

यदल्पमूलं त्रपुसैः सताम्रैस्तद्वेष्टचप-
त्रैरथवायसैर्वा । क्षाराग्निशस्त्राण्य-
वचारयेच्च मुहुर्मुहुः प्राणमवेक्ष्यमा-
णः ॥ यदृच्छया चोपगतानि पाकं
पाकक्रमेणोपचरेद्विधिज्ञः ॥ २० ॥

और जो अर्बुद अल्पमूलवाला हो तो मीसे, ताँवे और लोहेको पत्रोंसे वेष्टित करके वारंवार क्षार अग्नि और शस्त्रसे प्रयोग करे। किन्तु बारवार प्राणोंकी रक्षा करता रहे। और जो अर्बुदरोग पक्का जाय तो विधिको जाननेवाला वैद्य पाकक्रमसे उपचार करे ॥ २० ॥

आस्फोटगोजीकरवरिपत्रैः कषाय-
मिष्टं व्रणशोधनार्थम् । शुद्धश्च तैलं
विदधीत भाङ्गीविडङ्गपाठात्रिफलासु
सिद्धम् ॥ २१ ॥

विष्णुकान्ता, गोजिया और कनेर इनके पत्तों का काथ बनाकर व्रणको शोधन करे। एव भारगी, वाय-विडंग, पाठ और त्रिफला इनके कल्क और काथसे तेलको पकाकर शुद्ध व्रणके ऊपर लगावे ॥ २१ ॥

स्तुहीगण्डीरिकास्वेदो नाशयेदर्बु-
दानि च । लवणेनाथवा स्वेदः सी-
सकेन तथैव च ॥ २२ ॥

धूरके डंडेका स्वेद देनेसे अर्बुदरोग नष्ट होता है। अथवा लवण और सीसेका स्वेद देनेसे भी अर्बुदरोग नष्ट होता है ॥ २२ ॥

निर्वृत्य जिह्वां दशनैर्विदंश्य त्रिधा
शिराशब्दमपि प्रकृत्या । निशाव-
साने त्रिदिनान्यवश्यम्पीण्डां हरेदर्बु-
दजां सुधोराम् ॥ २३ ॥ मूलकस्य
कृतः क्षारो हरिद्रायास्तथैव च ।
शङ्खचूर्णेन संयुक्तो लेपः सिद्धोऽर्बु-
दापहः ॥ २४ ॥

प्रातःकाल जिह्वाकां वचाकर स्वभावसे उत्पन्न हुई गिराओंको कटकट शब्द करता हुआ दातोंसे तीन बार काटे इस प्रकार तीन दिनतक करनेसे अर्बुदकी घोर पीडा अवश्य जान्त होती है। मूलीका खार, हलदीका खार और शरका चूर्ण इन सबको एकत्र मिलाकर प्रलेप करनेसे अर्बुदरोग नष्ट होता है ॥ २३ ॥ २४ ॥

उपोदिकरसाभ्यक्तास्तत्पत्रपरिवेष्टि-
ताः । प्रणश्यन्त्यचिरान्नुणां पिडिका
ह्यर्बुदादयः ॥ २५ ॥

पोईका स्वरस निकालकर अर्बुदपर लेप करे और ऊपरसे पोईके पत्तोंको बाँध देवे तो तत्काल ही अर्बुदवाटिकी पिडिका नष्ट होजाती है ॥ २५ ॥

उपोदिका कााञ्जिकतक्रपिष्टा तथो-
पनाहं लवणेन सार्धम् । दृष्टोऽर्बुदा-
नां प्रशमाय कौश्विदिने दिने वा त्रि-
षु मर्मजानाम् ॥ २६ ॥

मर्ममे अर्बुद उत्पन्न हो तो पोईको काजी और तक्रमे पीसकर उसमें नमक मिलाकर रात्रिमें तथा दिनमें बराबर लेप करे ॥ २६ ॥

वटदुग्धकुष्ठरोमकलिप्तं वट्टं वटस्य
कल्केन । अध्यस्थि सप्तरात्रान्मह-
दपि शमयेत्सिद्धमिदम् ॥ २७ ॥

वटका दूध, कूठ और रोमकलवण इनको एकत्र पीसकर वटके कल्कमें मिलाकर प्रलेप करनेसे सात दिनमें सर्व प्रकारके अर्बुद रोग नष्ट होते हैं यही सिद्ध है ॥ २७ ॥

गन्धशिलाविश्वौषधविडङ्गयवभस्मजं
समञ्चूर्णम् । कृकलासरक्तयुक्तं
लेपात्सर्वार्बुदध्वंसि ॥ २८ ॥

गवक, मैनशिल, सोठ, वायविडंग और जौकी भस्म इन सबका एकत्र चूर्ण करके किलीके रुबिरमे मिला कर लेप करनेसे सर्व प्रकारके अर्बुदरोग नष्ट होते हैं ॥ २८ ॥

सितमारशिग्रुसर्षपयवमूलकबीजरसा-
न्वितेन । लेपस्तत्र कृतोऽयं ग्रन्थर्बुद-
गण्डमालघ्नः ॥ २९ ॥

सफेद मिरच, साहिजनेके बीज, मरसों, जौ और मूलीके बीजोंका रस इन सबको एकत्र मिला कर लेप करनेसे ग्रन्थि, अर्बुद और गण्डमाला रोग नष्ट होता है ॥ २९ ॥

शिग्रुमूलकयोर्वीजं रक्षोघ्नं सरलं यवम् । अश्वमारश्च संपिप्य तक्रले-पोऽर्बुदादिजित् ॥ ३० ॥

साहिजने और मूलीके बीज, देवदारु, धूपसरल, जौ और कनेरकी जड़ इन सबको तक्रमें पीसकर लेप करनेसे अर्बुदादिरोग नष्ट होते हैं ॥ ३० ॥

इति श्रावंगसेने भापाटीकायां अर्बुदा-धिकारः समाप्तः ॥ ४६ ॥

अथ श्लिपदरोगाधिकारः ।

श्लिपदका निदान ।

यः सञ्चरो वङ्क्षणजो भृशार्तिः शोथो नृणां पादगतः क्रमेण । तच्छ्लिपदं स्यात्करकर्णनेत्रशिश्नौष्ठनासास्वपि केचिदाहुः ॥ १ ॥

जो सूजन प्रथम वक्षणमें उत्पन्न होकर फिर धीरे-धीरे पैरोंमें आजावे और उसमें ज्वर तथा अत्यंत पीडा हो उसको श्लिपद (पीलपाया) रोग कहते हैं। यह श्लिपद रोग हाथ कान, नेत्र, लिंग, होठ और नासिकामें भी होता है ऐसा कोई कोई आचार्य्य कहते हैं ॥ १ ॥

वातजश्लिपदके लक्षण ।

वातजं कृष्णरूक्षश्च स्फुटितं तीव्रवेदनम् । अनिमित्तरुजं तस्य बहुशो ज्वर एव च ॥ २ ॥

वातजश्लिपदरोग—काला, रूखा, फटा, तीव्रपीडा-युक्त, विनाकारण ही दुखनेवाला और अधिक ज्वरवाला होता है ॥ २ ॥

पित्तजश्लिपदके लक्षण ।

पित्तजं पीतसंकाशं दाहज्वरयुतं मृदु ।

पित्तका श्लिपद पीला, दाह और ज्वरसंयुक्त तथा कोमल होता है ।

कफजश्लिपदके लक्षण ।

श्लेष्मिकं स्निग्धवर्णश्च श्वेतं पांडु गुरु स्थिरम् ॥ ३ ॥

कफका श्लिपद चिकना, सफेद, धूसर, भारी और स्थिर होता है ॥ ३ ॥

असाध्यलक्षण ।

बल्भीकमिव संजातं कण्ठकैरुपची-यते । अब्दात्मकं महत्तच्च वर्जनीयं विशेषतः ॥ ४ ॥

त्रिदोषजश्लिपद सौंपकी बांवीकी समान ऊंचा नीचा कांटोंयुक्त होता है । यह त्रिदोषज श्लिपद जिसको उत्पन्न हुए एक वर्ष बीत गया हो और जो बहुत बढ़ गया हो उसको वैद्य त्याग देवे ॥ ४ ॥

त्रीण्यप्येतानि जानीयाच्छ्लिपदानि कफोच्छ्रयात् । गुरुत्वश्च महत्त्वश्च यस्मान्नास्ति विना कफात् ॥ ५ ॥

तीनों प्रकारके श्लिपदमें कफकी अधिकता होती है । कारण यह है कि, भारीपन और महत्त्व कफके विना नहीं होते ॥ ५ ॥

यच्छ्लेष्मलाहारविहारजातं पुंसः प्रकृत्याऽपि कफात्मकस्य । सस्त्रावमत्युन्नतसर्वलिङ्गं सकंडुरं श्लेष्मयुतं विवर्ज्यम् ॥ ६ ॥

जो श्लिपदरोग कफकारक आहारविहारसे उत्पन्न हो और उस रोगीकी प्रकृति भी कफकी हो एवं जिस श्लिपदमें पानी स्त्रेव अत्यन्त ऊंचा सर्व दोषोके लक्षणों युक्त और जिसमें विशेष खुजली चले ऐसा श्लेष्मायुक्त श्लिपदरोग असाध्य जानना ॥ ६ ॥

पुराणोदकभूयिष्ठाः सर्वर्तुषु च शी-
तलाः । ये देशास्तेषु जायन्ते श्लिप-
दानि विशेषतः ॥ ७ ॥

जिन देशोमे पुराना वर्षाका जल अधिकतर भरा
रहता है और जो देश सर्व ऋतुओमे शीतल रहते है
उन अनूपादि देशोमे यह श्लिपदरोग विशेष करके
होता है ॥ ७ ॥

श्लिपदकी चिकित्सा ।

शाम्यति पिच्छिलगुटिका सर्षपक
ल्कोपनाहतः सपदि । शैलबलाभ्यां
लेपः करचरणशोथतामपि च ॥ ८ ॥

श्लिपदरोगमे प्रथम सरसोके कल्ककी पोटीली
अर्थात् पुलटिस बनाकर पावोमे उपनाह स्वेद देवे तथा
मनाशिल और खिरैटीका हाथ और पांवोमे मन्दोष्ण
लेप करे तो तत्काल सूजन दूर होजाती है ॥ ८ ॥

लङ्घनालेपनस्वेदरेचनै रक्तमोक्षणैः ।

प्रायः श्लेष्महरैरुष्णैः श्लिपदं सन्नुपा-
चरेत् ॥ ९ ॥

श्लिपदरोगमे लघन, प्रलेप, स्वेद, विरेचन, रक्तमोक्षण
और कफनाशक उष्णक्रिया ये सब उपचार करने
चाहिये ॥ ९ ॥

यासमैरंडजं तैलं पिबेन्मूत्रेण धान-
वः । कासमर्दशिफाकल्कं गठयेना-
ज्येन यः पिबेत् । श्लिपदं वातजं तरय
नाशमायाति सत्वरम् ॥ १० ॥

अण्डीके तैलमे गोमूत्र डालकर एक महीने पर्यन्त
पान करनेसे अथवा कसौडीके जडके कल्कको गौके
घृतके साथ सेवन करनेसे वातजश्लिपदरोग जीत्र नष्ट
होता है ॥ १० ॥

महौषधविपक्वेन पयसा चात्रमादि-
शेत् ॥ ११ ॥

इसपर सोंठको दूधमे औटाकर भातके साथ
सेवन करे ॥ ११ ॥

शुल्फस्याधःशिरां विध्येच्छ्लिपदे पि-
त्तसम्भवे । पित्तघ्नीश्च क्रियां कुर्यात्
त्पित्तार्धुद्विसर्पवान् ॥ १२ ॥

पित्तजश्लिपदरोगमे शुल्फकी नीचेकी शिराको
वेधकर रक्तमोक्षण करावे तथा पित्तार्धुद और पित्त-
विसर्पके समान चिकित्सा करे ॥ १२ ॥

मञ्जिष्ठामधुकं रास्नासहिंस्त्रासपुनर्न-
वाः । पिष्टारनालैर्लेपोऽथ पित्तश्लि-
पदशान्तये ॥ १३ ॥

मजीठ, मुलैठी, रायसन, हीस और पुनर्नवा इन
सबको एकत्र काँजीमे पीसकर लेप करनेसे पित्तका
श्लिपदरोग शमन होता है ॥ १३ ॥

शिरां सुविदितां विध्येदंगुष्ठे श्लेष्म-
श्लिपदे । पिबेद्वाप्यभयाकल्कं मूत्रे-
णान्यतमेन वै ॥ १४ ॥

कफजश्लिपदरोगमे पाँवकी अंगूठकी शिराको वेधे
और हरडके कल्कको गोमूत्रके साथ पान करे ॥ १४ ॥

पिबेदेव गुडूचीं वा नागरं भद्रदारु
च । पिबेत्सर्षपतैलेन श्लिपदानां नि-
वृत्तये ॥ १५ ॥

अथवा गिलोय, सोठ और देवदारु इनके कल्क-
को गोमूत्रके साथ पीनेसे अथवा सरसोके तैलको
गोमूत्रमे मिलाकर पान करनेसे श्लिपदरोग दूर होता
है ॥ १५ ॥

हितं वा लेपने नित्यं चित्रकं देवदारु
च । सिद्धार्थशिग्रुकल्को वा सुशो-
ष्णो मूत्रेषितः ॥ १६ ॥

चीता और देवदारु अथवा सफेद सरसो
और सहिजना इनको गोमूत्रमे पीसकर मन्दोष्ण
प्रलेप करनेसे श्लिपदरोग जात होता है ॥ १६ ॥

सिद्धार्थसौभाग्यनदेवदारुविश्वौषधै-
र्मूत्रयुतैः प्रलेपः । पुनर्नवानागरसर्ष-
पानां कल्केन वा काञ्जिकमिश्रिते-
न ॥ १७ ॥

सफेद सरसो, सहिजना, देवदारु और सोठ
इन सबको एकत्र गोमूत्रमे पीसकर प्रलेप करनेसे
अथवा पुनर्नवा, सोठ और सरसो इनको काँजीमे
पीस कर प्रलेप करनेसे श्लिपदरोग शान्त
होता है ॥ १७ ॥

धत्तूरैरंडनिर्गुण्डीवर्षाभूशिष्टुसर्षपैः ।
प्रलेपः श्लिपदं हन्ति चिरोत्थमपि
दारुणम् ॥ १८ ॥

धतूरा, अण्डकी जड, निर्गुण्डी, पुनर्नवा, सहिजना और सफेद सरसो इनको एकत्र जलमें पीसकर लेप करनेसे बहुत दिनोंका पुराना और दारुण श्लिपद्रोग नष्ट होता है ॥ १८ ॥

असाध्यमपि यात्यस्तं श्लिपदं चिर-
कालजम् । मूलेन सहदेवायास्ताल-
मिश्रेण लेपितम् ॥ १९ ॥

सहदेई जडको पीसकर हरितालेमें मिलाकर लेप करनेसे बहुत दिनोंका पुराना और असाध्य श्लिपद्रोग नष्ट होता है ॥ १९ ॥

निष्पिष्टमारनालेन रूपिकामूलव-
ल्कलम् । प्रलेपाच्छ्लिपदं हन्ति बद्ध-
मूलमपि स्थिरम् ॥ २० ॥

लाल आककी जडकी छालको कौजीमें पीसकर लेप करनेसे बद्धमूल और स्थिर जडवाला भी श्लिपद्रोग नष्ट होता है ॥ २० ॥

शाखोटवल्कलमिश्रं तोयं गोमूत्रसं-
युतं पीत्वा । हन्याच्छ्लिपदमुग्रं श्लेष्म-
भवं श्लिपदं पुंसाम् ॥ २१ ॥

सिहोडेकी जडको जलमें पीसकर पश्चान् उसको गोमूत्रमें मिलाकर पान करनेसे कफोत्पन्न उग्र श्लिपद्रोग नष्ट होता है ॥ २१ ॥

पिंडारकतरुसम्भववन्दाकशिफा ज-
यति सर्पिषा पीता । श्लिपदमुग्रं
नियतं बद्धा सूत्रेण जङ्घायाम् ॥ २२ ॥

पिंडारवृक्षपर उत्पन्न होनेवाले बदेकी जडको पीसकर घीमें मिलाकर पान करे और उसकी जडको सूतसे जवाओमें बाँधदेवे तो श्लिपद्रोग नष्ट होता है ॥ २२ ॥

धत्तूरकस्य बीजानि पिप्पलीवर्द्धमा-
नवत् । शीतोदकेन पीतानि श्लि-
पदं हन्ति दारुणम् ॥ २३ ॥

धत्तूरके बीजोंको वर्द्धमानपीपलके समान घटाने वढानेके क्रमसे शीतल जलके साथ पान करनेसे कफजन्य दारुण श्लिपद्रोग शांत होता है ॥ २३ ॥

पिबेत्सर्षपतैलेन श्लिपदानां निवृत्त-
ये । पूतीकरञ्जद्वजं रसं वापि यथा-
बलम् ॥ २४ ॥ अन्नैव विधानेन पु-
त्रजीवकजं रसम् । प्रयुञ्जीत मिष-
कप्राज्ञः कालसाभ्यविभागवित् ॥ २५ ॥

पूतीकरंजके पत्तोंके स्वरसको अथवा जियापोताके पत्तोंके स्वरसको सरसोके तेलके साथ प्रथम समय रोगीका बलावल और प्रकृतिको और समयको विचारकर देवे तो श्लिपद्रोग नष्ट होता है ॥ २४ ॥ २५

सप्तताम्बूलपत्राणां कल्कं तप्तेन
वारिणा । संसृष्टलवणोपेतं श्लिपदं ह-
न्ति सेवितम् ॥ २६ ॥

पानके साथ पत्तोंको पीसकर कल्क बनावे । इस कल्कमें सेधानमक मिलाकर गरम जलके साथ सेवन करनेसे श्लिपद्रोग नष्ट होता है ॥ २६ ॥

रजनीगुडसंयुक्तं गोमूत्रेण पिबेन्नरः ।
वर्षोत्थं श्लिपदं हन्ति कंडूं कुष्ठं वि-
शेषतः ॥ २७ ॥

हलदी और गुडको गोमूत्रके साथ पान करनेसे एक वर्षका पुराना भी श्लिपद्रोग तथा विशेष करके कण्डू और कुष्ठरोग नष्ट होता है ॥ २७ ॥

वर्षाभूत्रिफलाचूर्णं पिप्पल्या सह
योजितम् । सक्षौद्रं विलिहेल्लहं चि-
रोत्थं श्लिपदं जयेत् ॥ २८ ॥

पुनर्नवा, त्रिफला और पीपल इनके चूर्णको सहदेवमें मिलाकर सेवन करनेसे बहुत दिनोंका पुराना भी श्लिपद्रोग नष्ट होता है ॥ २८ ॥

बृद्धदारुकचूर्णन्तु सूत्रसौवीरकादि-
भिः । शीलितं श्लिपदं हन्ति कृच्छ्रं
संदत्सरोत्थितम् ॥ २९ ॥

विधारेके चूर्णको गोमूत्र और सौवीरनामक काँजी आदिके साथ सेवन करनेसे एक वर्षका पुराना और कष्टसाध्य श्लीपदरोग नष्ट हो जाता है ॥ २९ ॥

क्षीरेण प्रातरुत्थाय पिबेद्यस्तु बला-
द्रयम् । सक्षीरं श्लीपदाज्जन्तुरसाध्या-
दपि मुच्यते ॥ ३० ॥

जो प्रातःकाल उठकर दूधके साथ खिरैटी और कंदीके चूर्णको पान करता है और दूधके साथ भोजन करता है वह असाध्य भी श्लीपदरोगसे मुक्त होजाता है ॥ ३० ॥

धान्याम्लतैलसंयुक्तं कफवातविना-
शनम् । दीपनं चामदोषघ्नमेतच्छ्ली-
पदनाशनम् ॥ ३१ ॥

धान्याम्लनामक काँजीके तेलके साथ सेवन करनेसे कफवातरोग नष्ट होता है, अग्नि दीपन होती है, आमदोष और विशेष कर श्लीपदरोग नष्ट होता है ॥ ३१ ॥

उपोह्य पिष्ट्वा क्षीरेण पिबेदक्षसमं
शुचिः । कीचकस्य च बीजस्य स-
प्तपर्णात्वचस्तथा ॥ ३२ ॥ नाडी च
बीजकस्यापि वातज्वरप्रशान्तये ।
पीत्वा च मासमेकं हि श्लीपदं नाश-
येद्भुवम् ॥ ३३ ॥

पोईको दूधमे पीसकर एकतोला प्रमाण शुद्ध होकर पान करे । बाँसके बीज, सतौनीकी छाल, नाडीका शाक और विजयसार इन सबको एकत्र पीसकर सेवन करनेसे वातज्वर नष्ट होता है । और इसको एक महीने पर्यंत सेवन करनेसे श्लीपदरोग निश्चय नष्ट होता है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

जिङ्गिण्यास्तु दलैः सम्यक् तुषांबु-
परिपेषितैः । स्वेदः श्लीपदनाशाय
कर्त्तव्यः संप्रजानता ॥ ३४ ॥

जिगिनीके पत्तोंको अच्छे प्रकारसे काँजीसे पीसकर स्वेद देनेसे श्लीपदरोग नष्ट होता है ॥ ३४ ॥

गोमूत्रहरीतकी ।

गन्धर्वतैलसिद्धां हरीतकीं गोजलेन
यः पिबति । श्लीपदबन्धनमुक्तो भव-
त्यसौ सप्तरात्रेण ॥ ३५ ॥

हरडकी अडोके तेलमे सिद्ध करके गोमूत्रके साथ सात दिनतक पान करनेसे श्लीपदरोग नष्ट होता है ॥ ३५ ॥

कृष्णाद्यमोदक ।

कृष्णाचित्रकदन्तीनां कर्षमर्द्धपलं प-
लम् । विंशतिस्तु हरीतक्यो गुडस्य
तु पलद्वयम् ॥ मधुना सह संयुक्तं
श्लीपदं हन्ति दारुणम् ॥ ३६ ॥

पीपल १ तोला, चीता २ तोले, दंती ४ तोले, हरड २० तोले और गुड ८ तोले लेवे, सबको एकत्र पीसकर शहदमे मिलाकर लड्डू बनावे । इन लड्डूओंको सेवन करनेसे दारुण श्लीपदरोग नष्ट होता है ॥ ३६ ॥

पिप्पलाद्यचूर्ण ।

पिप्पलीत्रिफलादारुनागरं सपुनर्न-
वम् । भागैर्द्विपलिकैरेषां तत्समं वृ-
द्धदारकम् ॥ ३७ ॥ काञ्जिकेन हि
तच्चूर्णं पिबेत्कर्षप्रमाणतः । जीर्णं वा
परिहारं स्याद्भोजनं सार्वकामिक-
म् ॥ ३८ ॥ श्लीपदं वातरोगांश्च हन्या-
त्प्लीहानमेव च । अग्निश्च कुरुते घोरं
भस्मकश्च प्रयच्छति ॥ ३९ ॥

पीपल, त्रिफला, देवदारु, सोठ और पुनर्नवा ये प्रत्येक औपधि आठ आठ तोले और सबकी बराबर विधारा लेवे । सबको एकत्र पीसकर एक तोला प्रमाण चूर्ण काँजीके साथ सेवन करे । इसके जीर्ण होनेपर यथेच्छ भोजन करे । यह चूर्ण-श्लीपद, वातरोग, प्लीहा और भस्मरोगको नष्ट करता है तथा अग्निको दीपन करता है ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥

वृद्धदारुकचूर्ण ।

त्रिकटुत्रिफलाचव्यं दावीवरुणगोक्षु-
रम् । अलम्बुषा गुडूची च समभा-

गानि चूर्णयेत् ॥ ४० ॥ सर्वेषां चूर्ण-
माहन्य वृद्धदारुकतत्समम् । काञ्चि-
केन च तत्पेयमक्षमात्रं प्रमाणतः ॥ ४१ ॥
जीर्णे चापरिहारं स्याद्भोजनं सार्व-
कामिकम् । नाशयेच्छीपदं स्थौल्य-
मामवातश्च दारुणम् ॥ गुल्मकुष्ठा-
रुचिहरं वातश्लेष्मरुजापहम् ॥ ४२ ॥

त्रिकुटा, त्रिफला, चव्य, दानहलदी, वरना,
गोखरु, गोरखमुडी आर गिलोय, ये सब औपधि
समान भाग लेवे और सबके बराबर विधारा लेवे ।
इन सबको एकत्र पीस कर चूर्ण कर ले । इस चूर्णको
काँजीके साथ एक तोला प्रमाण भेवन करे । इसके
जीर्ण होनेपर यथेच्छानुसार भोजन करे । यह चूर्ण-
श्लोपद, स्थौल्य, दारुण आमवात, गुल्म, कुष्ठ,
अरुचि और वात तथा कफके रोगोंको दूर करता
है ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

निर्गुण्ड्यादिगण्ड ।

निर्गुण्डी तिलिताडिका शिखिमन्थदलं
पुनर्नवामूलम् । भेत्ता पाषाणानां गो-
क्षुरुकः पारिभद्रकतद्वक्त्र ॥ ४३ ॥ ए-
तैः पलाशैर्यो राशिस्तनः स्याद्वि-
गुणः खलिः । तैलेन सर्षपाणान्तु
तदेकीकृत्य बुद्धिमान् ॥ ४४ ॥ शा-
लैर्भेदेन संदध्यात्समरात्रं नवे घटे ।
ततः सर्षपतैलेन पिवेत्कर्षप्रमाणतः
॥ ४५ ॥ जीर्णे भुञ्जीत शाल्यन्नं मु-
द्गानां पक्षिणां रसैः । पञ्चाशद्वर्षजा-
तश्च जाताङ्कुरमपि शुबम् । त्रिसप्ता-
हाज्जयत्येष श्लीपदं नात्र संशयः ॥ ४६ ॥

निर्गुण्डी, इमली, अरणीके पत्ते, पुनर्नवेकी जड़,
पाषाणभेद, गोखरु और फरहद अथवा नीमकी छाल
ये प्रत्येक औपधि चार २ तोले और सबसे दुगुनी
सरसों या अलसीकी खल लेवे, इन सबको एकत्र
करके सरसोंके तेलमें मिलाकर गालिचावलोके मांडमे
डाल कर एक नवीन घडेमे भर कर सात दिन तक
रख देवे । फिर इसमेंसे निकाल कर सरसोंके तेलके

साथ इसको एक तोला प्रमाण सेवन करे । और
जब यह औपधि जीर्ण होजाय तब गालिचावलोका
भात, मूँग और पक्षियोका मांसरस भोजन करे । यह
औपधि पचास वर्षके पुराने और अंकुरवाले श्रीपदको
भी केवल तीन सप्ताहमें नष्ट करती है ॥ ४३-४६ ॥

द्वितीयपिप्पल्यादिचूर्ण ।

पिप्पलीत्रिफलादारुनागरं सपुनर्नव-
म् । प्रत्येकं षोडशपलं गृहीत्वा चा-
त्र चूर्णयेत् ॥ ४७ ॥ वृद्धदारुकचूर्णेन
समभागेन मिश्रयेत् । अतश्चूर्णं पिवे-
त्कर्ष मानवः काञ्चिकादिभिः ॥ ४८ ॥
जीर्णे त्वपरिहारं स्याद्भोजनं सार्व-
कामिकम् । नाशयेच्छीपदं गुल्मं
शूलं प्लीहानमेव च ॥ ४९ ॥ अग्निश्च
कुरुते दीप्तिं सेव्यमानन्तु भस्मकम् ।
उदावर्त्तमजीर्णश्च हन्त्यामानिलपांडु-
ताम् । पिप्पल्यादिरयं ख्यातो वि-
शेषाच्छीपदे हितः ॥ ५० ॥

पीपल, त्रिफला, देवदारु, सोठ और पुनर्नवा ये
प्रत्येक औपधि सोलह २ पल लेकर वारीक पीसकर
चूर्ण कर ले और सब चूर्णके बराबर विधारेका चूर्ण
लेवे।सबको मिलाकर इस चूर्णमेंसे प्रतिदिन एक तोला
प्रमाण काँजीके साथ अथवा अन्य किसी अनुपानके
साथ सेवन करे । इसके जीर्ण होनेपर यथेष्ट भोजन
करे । यह चूर्ण-श्रीपद, गुल्म, शूल, प्लीहा, भस्मक
रोग, उदावर्त्त, अजीर्ण, आमवात, पाण्डुरोग और
विशेष करके श्रीपदरोगको नष्ट अरता है, तथा
अधिको दीपन करता है ॥ ४७-५० ॥

काकादन्यादिक्षार ।

काकादनी काकजङ्घा बृहती कण्ट-
कारिका । कदम्बपुष्पी मन्दारी लवा
शुकनसी तथा ॥ ५१ ॥ दग्ध्वा मूत्रे-
ण तद्भ्रम स्त्रावयेत्क्षारकल्कवत् ।
तत्र दद्यात्प्रतीवापं काकोदुम्बरिका-
रसम् ॥ ५२ ॥ मदनानां पलकाथं
शुक्लाख्याया रसस्तथा । एषः क्षार-

स्तु पानीयः श्लोपदं हन्ति सेवितः ॥
 ॥ ५३ ॥ अपर्चा गंडमालाश्च ग्रहणी-
 दोषमेव च । अभक्ते रोचनश्चैव ह-
 न्यात्सर्वविषाणि च ॥ ५४ ॥ एष्वेव
 तैलं संसिद्धं यस्याभ्यङ्गेषु योजितम् ।
 एतत्तानामयान्हन्ति ये च दुष्टव्रणा
 नृणाम् ॥ ५५ ॥

काकादनी (कौआठोडे) काकजघा (मसी)
 वडीकटेरो, कटेरी, गोरखमुडी, यदारकी जड, लाम-
 जक तृण और ज्योनाक इन सबको एकत्र करके
 भस्म कर लेवे। फिर उस भस्मको क्षारकल्कके समान
 गोमूत्रमे पकावे और उसमे कटूमरका रस डाले ।
 फिर इस क्षारको चार ताले प्रमाण मैतफलके काथके
 साथ अथवा गुआठोडेके रसके साथ या ज्योनाकके
 पत्तोंके रसके साथ पान करे तो श्लोपदरोग नष्ट
 होता है । यह औषधि-अपर्चा, गण्डमाला, सग्रहणी,
 असीच और सर्वप्रकारके विषके विकाराको दूर करती
 है । इन्ही उपर्युक्त औषधियोंके द्वारा तेलको पकाकर
 उस तेलके द्वारा अभ्यंगादि करनेसे सर्व प्रकारके रोग
 और सर्व प्रकारके दुष्ट व्रण नष्ट होते हैं ॥ ५३-५५ ॥

सौरेश्वरघृत ।

सुरसा देवकाष्ठश्च त्रिकटु त्रिफला
 गजा । लवणानि च सर्वाणि विडंग-
 ग्रंथिचित्रकम् ॥ ५६ ॥ चविका पि-
 प्पलीमूलं गुग्गुलुर्हपुषा वचा । यवा-
 यजश्च पाठा च शट्येले वृद्धदारु-
 कम् ॥ ५७ ॥ कल्कैश्च कार्षिकैरैतैर्वृ-
 तप्रस्थं विपाचयेत् । दशमूलीकषा-
 येण धान्ययूषद्रवेण च ॥ ५८ ॥ दधि-
 मंडसमायुक्तं प्रस्थं प्रस्थं पृथक्पृथक् ।
 पक्वं तद्दुद्धृतं कल्कात्पिबत्कर्षत्रयं हविः
 ॥ ५९ ॥ श्लोपदं कफवातोत्थं मांस-
 रक्ताश्रितश्च यत् । मेदोश्रिताभिघा-
 तोत्थं हन्यादेव न संशयः ॥ ६० ॥
 अपर्चा गंडमालाश्च अन्नवृद्धिं तथा-
 र्हुदम् । नाशयेद्ग्रहणीदोषं श्वयथुं गुद-
 जान्यपि ॥ ६१ ॥ परमाश्रिकरं हृद्यं

कोष्ठकृमिविनाशनम् ॥ ६२ ॥ घृतं
 सौरेश्वरं नाम श्लोपदं हन्ति दारुण-
 म् । जीवकेन कृतं ह्येतद्रोगानीक-
 विनाशनम् ॥ ६३ ॥

सुरसा (तुलसी) देवदारु, त्रिफला, त्रिकुटा, गजपी-
 पल, पांचो नमक, वायविडंग, गठिवन, चीता, चव्य,
 पीपलामूल, गूगल, हाऊवेर, वच, जवाखार, पाठ,
 कचूर, दोनो इलायची और विधारा इन प्रत्येक
 औषधिका कल्क एक २ तोला और उत्तम गौका घी
 १ प्रस्थ, दशमूलका काथ १, प्रस्थ धनियेका काथ
 १ प्रस्थ और दहीका मांड १ प्रस्थ लेवे । सबको यथा-
 विधिसे मिलाकर विधिपूर्वक घृतको पकावे । इस
 घृतमेसे प्रतिदिन तीन तोले प्रमाण सेवन करे । यह
 घृत-कफवातोत्पन्न श्लोपदरोग, मांसरक्ताश्रित श्लोप-
 दरोग, मेदोश्रित श्लोपद, अभिघातोत्पन्न श्लोपद,
 अपर्चा, गण्डमाला, अन्नवृद्धि, अर्बुद, सग्रहणारोग,
 सूजन और गुदज रोग इन सबको नष्ट करता है,
 अश्रिको अत्यंत दीपन करता है, हृदयको हितकारी,
 कोष्ठगत कृमियोंको नष्ट करनेवाला और दारुण
 श्लोपद रोगको दूर करनेवाला है । यह सौरेश्वर घृत
 जीवकनाथ आचार्य्यने सम्पूर्ण रोगोंको नष्ट करनेके
 लिये कहा है ॥ ५६-६३ ॥

दन्तीघृत ।

दन्तीमूलपलं दद्यात्त्रिभृन्मूलपलं त-
 था । त्रिफलातिविषाचित्रविडङ्गार्ध-
 पलोन्मितम् ॥ ६४ ॥ स्नुहीक्षारस-
 मायुक्तं घृतस्य कुडवं पचेत् । बिन्दु-
 मात्रोपयोगेन वेगः समुपजायते ।
 दुर्वारं श्लोपदं हन्ति वृक्षामिन्द्राश-
 निर्यथा ॥ ६५ ॥

दन्तीकी जड ४ तोले, निसोतका जड ४ तोले,
 त्रिफला, अतीस, चीता और वायविडंग ये प्रत्येक
 औषधि दो दो तोले और थूहरक्षार ४ तोले लेवे ।
 सबको मिला कर यथाविधिसे एक कुडवपरिमाण
 घृतको पकावे । इस घृतमेसे एक बिन्दुमात्र सेवन
 करनेसे अत्यन्त वेगसे दस्त होने लगते हैं । यह घृत-
 अत्यंत दुनिवार श्लोपदरोगको इस प्रकार नष्ट कर
 देता है जिस प्रकार इन्द्रका वज्र पृक्षोको नष्ट कर
 देता है ॥ ६४ ॥ ६५ ॥

वृद्धदारुकघृत और तेल ।

घृतप्रस्थं विपक्तव्यं सव्योषैर्वृद्धदारु-
कैः । कल्कैःसौवीरसिद्धं स्याच्छी-
पदानां निवृत्तये ॥ ६६ ॥ अग्निश्च कु-
रुते नृणामामवाते च शस्यते । ए-
भिः कटु पचेत्तैल पानाच्छीपदनाश-
नम् ॥ ६७ ॥

गौका बी १ प्रस्थ, त्रिकुटा और विधारेका कल्क
८ तोले और सौवीर नामवाली काँजी ४ प्रस्थ लेवे ।
सबको गथाविधिसे मिलाकर घृतको पकावे । यह
घृत—अग्निको दीपनकरनेवाला, आमवात रोगमें अत्य-
त हितकारी और विशेष कर श्मीपदरोगको नष्ट
करता है । और जो इनहीं औषधियोंके द्वारा कड़वे
तेलको पकाया जाय तो वह तेल भी इसीके समान
गुणोंको करता है ॥ ६६ ॥ ६७ ॥

विडंगाद्यतैल ।

विडङ्गमरिचार्केषु नागरं चित्रकं त-
था । भद्रदारुवेलवाख्ये च सर्वेषु लव-
णेषु च । तैलं पक्वं पिवेद्वापि श्ली-
पदानां निवृत्तये ॥ ६८ ॥

वायविडंग, कालीमिरच, आककी जड़, सोठ, चीता,
देवदारु, एलुआ और सर्वप्रकारके नमक इन औष-
धियोंके द्वारा तेलको पकावे । इस तेलको पान कर-
नेसे श्मीपदरोग अवश्य नष्ट होजाता है ॥ ६८ ॥

यवान्नं कटुतैलेन कूर्ममांसश्च योज-
येत । श्लीपदानां प्रशान्त्यर्थं मांसा-
न्तो दाहमग्निना ॥ ६९ ॥

श्मीपदरोगमें जौका अन्न, कड़वा तेल और कटुए-
का मांस इनको सेवन करे । तथा जबतक मांस न
जले तबतक अग्निसे दाग देवे ॥ ६९ ॥

इति श्रीवङ्गसेने भापाटीकायां श्लीपद-
रोगाधिकार समाप्तः ॥ ४८ ॥

अथ विद्रधिरोगाधिकारः ।

विद्रधिका सम्प्राप्ति-
पूर्वक निदान ।

त्वग्रक्तमांसमेदांसि प्रदूष्यास्थिसमा-
श्रिताः । दोषाः शोथं शनैर्घोरं
जनयन्त्युच्छ्रिता भृशम् ॥ १ ॥

अपने २ कारणोंसे कुपित हुए वातादिदोष अत्यन्त
बढ़कर हड्डियोंमें स्थित होकर त्वचा, रुधिर, मांस और
मेदको दूषित करके शनैः शनैः अत्यन्त दारुण और
ऊपरको उठी हुई सृजनको उत्पन्न करते हैं ॥ १ ॥

महाशूलं रुजावन्तं वृत्तं वाप्यथवा-
ऽऽयतम् । स विद्रधिरिति ख्यातो
विज्ञेयः षड्विधश्च सः ॥ २ ॥ पृथ-
ग्दोषैः समस्तैश्च क्षतेनाप्यसृजा त-
था । षण्णामपि हि तेषां तु लक्षणं
सम्प्रचक्षते ॥ ३ ॥

वह सृजन अत्यन्त गूलयुक्त ओर पीडासंयुक्त
होती है तथा गोल या फैली हुई होती है । उसको
विद्रधि कहते हैं । वह छ प्रकारकी है । जैसे वातज,
पित्तज, कफज, सन्निपातज, क्षतज और रक्तज ऐसे
यह छ प्रकारकी विद्रधि होती है। अब छहोके लक्षण
कहते हैं ॥ २ ॥ ३ ॥

वातजविद्रधिके लक्षण ।

कृष्णोऽरुणो वा विषमो भृशमत्य-
र्थवेदनः । चित्रोत्थानप्रपाकश्च वि-
द्रधिर्वातसम्भवः ॥ ४ ॥

वातजविद्रधि—काली, लाल, कभी छोटी, कभी मोटी
ऐसे घटे बड़े अत्यन्त पीडायुक्त होती है । इसका
उत्पन्न होना और पकना अनेकप्रकारस होता है ४ ॥

पित्तजविद्रधिके लक्षण ।

पक्कोदुग्बरसंकाशः श्यावो वा ज्वर-
दाहवान् । क्षिप्रोत्थानप्रपाकश्च वि-
द्रधिः पित्तसम्भवः ॥ ५ ॥

पित्तजविद्रधि—पके गूलरके समान रंगवाली हो
या काली और लालरगकी हो ज्वर और दाहयुक्त
हो इसका उत्पन्न होना और पकना शीघ्र होता
है ॥ ५ ॥

कफजविद्रधिके लक्षण ।

शरावसदृशः पांडुः शीतः स्निग्धो-
ऽल्पवेदनः । चिरोत्थानप्रपाकश्च वि-
द्रधिः कफसम्भवः ॥ ६ ॥

कफजविद्रधि—सकोरेके समान बड़ी हो, पाण्डुवर्ण
हो, शीतल, स्निग्ध, अल्पपांडा युक्त हो, इसका
उत्पन्न होना और पकना बहुत देरमें होता है ॥ ६ ॥

पकनेके अनन्तर उनका स्राव ।

तनुपीतसिताश्रैषामास्रावाः क्रमशः
स्मृताः ॥ ७ ॥

वातजविद्रधिकी राध पतली, पित्तजविद्रधिकी राध
पीली और कफजविद्रधिकी राध सफेद होती है ॥ ७ ॥

सन्निपातकी विद्रधिके लक्षण ।

नानावर्णरुजाम्रावो घण्टालो वि-
षमो महान् । विपमं पच्यते वापि
विद्रधिः सान्निपातिकः ॥ ८ ॥

सन्निपातकी विद्रधि अनेक प्रकारकी पांडायुक्त,
जिसमें अनेक प्रकारकी राध बहे, घटेकी समान
ऊपरसे पतली ओर नीचेमें मोटी कभी घटती है
कभी बढती है और रह रह कर पकती है ॥ ८ ॥

आगन्तुकविद्रधिके लक्षण ।

तैस्तैर्भावैरभिहते क्षते वाऽपथ्यका-
रिणः । क्षतोष्मावायुविसृतः सरक्तं
पित्तभीरयेत् ॥ ९ ॥ ज्वरस्तृष्णा च
दाहश्च जायते तस्य देहिनः । आ-
गन्तुर्विद्रधिर्ज्ञेयः पित्तविद्रधिलक्षणः १०

लाठी, पत्थर, शस्त्र आदिकी चोटके लगनेसे
अथवा घावके होजानेमें, अपथ्यसेवी मनुष्यके उस
चोट या घावकी गरमसे वायु विस्तृत होकर रक्त
आप पित्तको कुपित करके विद्रधिको उत्पन्न करता

है । इसमें ज्वर, तृणा और दाह होती है । विशेष
करके इसमें पित्तजविद्रधिके लक्षण होते हैं । इसको
आगन्तुक विद्रधि कहते हैं ॥ ९ ॥ १० ॥

रक्तजविद्रधिके लक्षण ।

कृष्णस्फोटावृतः श्यावस्तीव्रदाह-
रुजाकरः । पित्तविद्रधिलिङ्गस्तु र-
क्तविद्रधिरुच्यते ॥ ११ ॥

जा काले फोडासे व्याप्त हो, काले रगकी हो,
तीव्रदाह, पीडा ओर ज्वरसंयुक्त हो तथा जिसमें
पित्तविद्रधिके लक्षण मिलते हो उसको रक्तजविद्रधि
कहते हैं ॥ ११ ॥

उक्ता विद्रधयो ह्येते तेष्वसाध्यस्त्रि-
दोषजः । आभ्यन्तरानतश्चोर्ध्वं वि-
द्रधीन् परिचक्ष्महे ॥ १२ ॥

उपर्युक्त सर्वप्रकारकी विद्रधियोमें त्रिदोषज विद्र-
धि असाध्य है । अब इसके उपरांत अन्तर्विद्रधिको
कहते हैं ॥ १२ ॥

अन्तर्विद्रधिके लक्षण ।

पृथक् संभूय वा दोषाः कुपिता गुल्म-
रूपिणीम् । वल्मीकवत्समुन्नद्धमन्तः
कुर्वन्ति विद्रधिम् ॥ १३ ॥

वातादि दोष पृथक् २ कुपित होकर अथवा सब
दोष एकत्र कुपित होकर शरीरके भीतर गोले और
वाँवीके समान बड़ी अन्तर्विद्रधिको करते हैं ॥ १३ ॥

विद्रधिके स्थान ।

गुदे बस्तिमुखे नाभ्यां कुक्षौ वदक्ष-
णयोस्तथा । वृक्कयोः प्लीहि यकृति
हृदये क्लोस्त्रि चाप्यथ ॥ १४ ॥ तेषा-
मुक्तानि लिङ्गानि बाह्यविद्रधिलक्ष-
णैः । अधिष्ठानविशेषण लक्षणानि
निबोध मे ॥ १५ ॥ गुदे वातनिरो-
धस्तु बस्तौ कृच्छ्राल्पमूत्रता । ना-
भ्यां हिक्का तथाटोपः कुक्षौ मारुत-
वेदना ॥ १६ ॥ कटीपृष्ठग्रहस्तीव्रो

वङ्क्षणोत्थे तु विद्रधौ । वृक्कयोः
पार्श्वसंकोचः प्लीह्युच्छ्वासावरोधन-
म् ॥ १७ ॥ सर्वाङ्गप्रग्रहस्तत्रिो हृदि
कासश्च जायते । श्वासो यकृति
हिक्का च पिपासाक्लोमजेऽधिका ॥ १८ ॥

गुदा, वस्ति, मुख नाभि, कोख, वंक्षण, वृक्क, प्लीहा, यकृत, हृदय और क्लोम इन स्थानोंमें विद्रधि उत्पन्न होती है। इनके लक्षण वातादि दोषोंके निमित्तसे बाह्यविद्रधिके समान जानने। तथापि स्थानकी विशेषतासे इनके विशेष लक्षण कहते हैं। गुदामें विद्रधि होनेसे अधोवायुका अवरोध होता है वस्तिस्थानमें विद्रधि होनेसे अन्यंत कष्टसे थोडा थोडा मूत्र उत्तरता है, नाभिमें होनेसे हिचकी तथा पीडायुक्त पेटमें गुड २ अद्द होता है। कोखमें होनेसे वायुका प्रकोप होता है। वंक्षणमें होनेसे पीठ और कमर बहुत जकड जाती है। वृक्कमें होनेसे पसलियोंमें संकोच होता है। प्लीहासे होनेमें श्वासका अवरोध होता है। हृदयमें होनेसे सम्पूर्ण अंग जकड जाते हैं और खौसी होती है। यकृतमें होनेसे श्वास और हिचकी होती है और क्लोममें विद्रधि होनेसे अविफ्रतर तृषा लगती है ॥ १४-१८ ॥

स्त्रावनिर्गम ।

नाभेरुपरिजा पक्का यान्त्यूर्ध्वमितरे
त्वधः । अधः सुतेषु जवित्तु सुतेपूर्ध्व
न जीवति ॥ १९ ॥

नाभिके ऊपर जो विद्रधि उत्पन्न होती है उसके पकनेसे राध बहती है। वह मुखके मार्गसे निकलती है। नाभिके नीचे जो विद्रधि उत्पन्न होती है। उसमेंसे जो राध निकलती है वह गुदाके मार्गसे बहती है। और नाभिमें उत्पन्न होनेवाली विद्रधियोंका स्त्राव मुख और गुदा दोनों मार्गोंसे होता है। जिन विद्रधियोंका स्त्राव गुदाके मार्गमें होवे वह रोगी साध्य और जिनका स्त्राव मुखके मार्गसे होता है वह रोगी असाध्य है ॥ १९ ॥

साध्यासाध्यता ।

हन्नाभिवस्तिवज्या ये तेषु भिन्नेषु बा-
ह्यतः । जीवित्कदाचित् पुरुषो नेत-

रेषु कथञ्चन ॥ २० ॥ साध्या विद्र-
धयः पञ्च विवर्ज्यः सान्निपातिकः ।
आमपक्कविदग्धत्वं तेषां शोथवदा-
दिशेत् ॥ २१ ॥

हृदय, नाभि और वस्ति इन स्थानोंके सिवाय अन्यस्थानोंमें उत्पन्न हुई जो विद्रधि बाहर फूटे तो कदाचित् रोगी जीजाता है और जो हृदय, नाभि तथा वस्ति स्थानकी विद्रधि बाहर फूटे तो रोगी निश्चय मर जाता है। पहिली पांच विद्रधि साध्य है और सन्निपातकी विद्रधि असाध्य है। इन विद्रधियोंकी आम, पक्क और विदग्ध अवस्था जोथ रोगकी समान जाननी चाहिए ॥ २० ॥ २१ ॥

विद्रधिके उपद्रव ।

आध्मानं वद्धनिःस्पन्दं छर्दिर्हिक्का-
तृषान्वितम् । रुजाश्वाससमायुक्तं
विद्रधिर्नाशयेन्नरम् ॥ २२ ॥

जिस विद्रधिरोगमें पेट फूल गया हो, मूत्र रुक गया हो तथा हिचकी, वमन, तृषा, शूल और श्वास हो वह विद्रधिरोग मनुष्यको मार देता है ॥ २२ ॥

आमो वा यदि वा पक्को महान्वा
यदि चैतरः । सर्वो मर्मोत्थितश्चात्र
विद्रधिः कष्ट उच्यते ॥ २३ ॥

मर्मस्थानोंमें उत्पन्न हुई विद्रधि आम (अपक) हो, अथवा पकगई हो, या बडी हो, अथवा छोटी हो ऐसी सर्व प्रकारकी विद्रधि कष्टसाध्य जाननी ॥ २३ ॥

हन्नाभिवस्तिजः पक्को वज्यो यश्च
त्रिदोषजः । मुष्टिप्रमाणो रक्तस्तु वि-
द्रधिस्तु ततः परः ॥ २४ ॥

जो विद्रधि हृदय नाभि और वस्तिस्थानमें उत्पन्न हुई हो और पकगई हो तथा जो विद्रधि त्रिदोषज हो और जिसमेंसे मुष्टिप्रमाण रुधिर निकले वह विद्रधि असाध्य समझनी ॥ २४ ॥

गुन्मस्तिष्ठति दोषेषु विद्रधिर्मास-
शोणिते । विद्रधिः पच्यते तस्माद्गु-
ल्मश्चापि न पच्यते ॥ २५ ॥

पञ्चवल्कलकलकेन घृतमिश्रेण लेप-
नम् । सर्पिषा शतधौतेन नवनीतेन
वा गवाम् ॥ ३६ ॥

पंचक्षीरी वृक्षोकी छालको पीसकर घीमें मिलाकर
प्रलेप करे अथवा सौ बार धुले हुए घीका प्रलेप करे
किवा गौके नैनी घृतका प्रलेप करे ॥ ३६ ॥

इष्टकासिकतालोहगोशकृत्तुषपांशु-
भिः । मूत्रैरुष्णैश्च सततं स्वेदयेच्छ्रे-
ष्मविद्रधिम् ॥ ३७ ॥

कफकी विद्रधिमें ईट, रेत, लोह, गौका गोबर,
भूसी और धूल इनको गोमूत्रमें मिला कर सुहाता
सुहाता सदैव स्वेद देवे ॥ ३७ ॥

दशमूलीकषायेण सस्त्रेहेन रसेन वा ।
शोथं व्रणं वा क्लोष्णेन समूलं परि-
षेचयेत् ॥ ३८ ॥

दशमूलके काथमें तेल घृतादि डालकर अथवा
मांसरसमें तेल घृतादि डाल कर गरम गरम शोथ
अथवा व्रणके ऊपर परिषेक करे ॥ ३८ ॥

त्रिफला शिशु वरुणं दशमूलाम्भसा
पिबेत् । गुग्गुलं मूत्रयुक्तं वा विद्रधौ
कफसम्भवे ॥ ३९ ॥

त्रिफला, सहिजना, वरनाकी छाल और दशमूल
इन सबका काथ बनाकर उसमें गूगल अथवा गोमूत्र
डालकर पान करनेसे कफकी विद्रधि नष्ट होती
है ॥ ३९ ॥

शिरां यथोक्तां विध्येच्च कफजे वि-
द्रधौ भिषक् । रक्तपित्तानिलोत्थेषु
केचिद्दाहा भवन्ति हि ॥ ४० ॥

कफजविद्रधिरोगमें वैद्य प्रथम यथाविधिसं जिरा-
को वेधे और रक्तपित्त और वातकी विद्रधिमें कितने
ही वैद्य दाग देना चाहिये ऐसा कहते हैं ॥ ४० ॥

पित्तविद्रधिवत्सर्वा क्रिया निरवशे-
षतः । विद्रधयोः कुशलः कुर्या-
द्रक्ताङ्गन्तु निमित्तयोः ॥ ४१ ॥

रक्तज और आगन्तुक विद्रधियोगमें सम्पूर्ण चिकि-
सा पित्तविद्रधिके समान करनी चाहिए ॥ ४१ ॥

पिबेद्वाभ्यन्तरे पथ्यां स च सौभाञ्ज-
नाद्रसम् । नाराचमथवा सर्पिस्तैलं
वाऽद्याद्ब्रूकजम् ॥ ४२ ॥

अन्तर्विद्रधिरोगमें हरड और सहिजनेके रसको
एकत्र मिलाकर पान करे अथवा नाराचघृतको पीवे ।
किवा अडाके तेलको पीवे ॥ ४२ ॥

कृष्णाजाजीविशाला च ह्यपामार्ग-
फलं तथा । पीतं ह्येतन्निहन्त्याशु
विद्रधिं कोष्ठसम्भवम् ॥ ४३ ॥

कालाजीरा, इन्द्रायन और चिरचिटेके बीज इन
सबको एकत्र मिलाकर जलमें पीसकर पान करनेसे
कोष्ठगत विद्रधिरोग नष्ट होता है ॥ ४३ ॥

शिशुमूलं जले धौतं दृषत्पिष्टं प्रगाल-
येत् । तद्रसं मधुना पीत्वा हन्त्यन्त-
र्विद्रधिं नरः ॥ ४४ ॥

सहिजनेकी जड़को जलमें धोकर पत्थरपर पीस-
कर बख्खमें छानलेवे। फिर उस रसमें गहद डालकर
पीवे तो अन्तर्विद्रधिरोग नष्ट होता है ॥ ४४ ॥

श्वेतवर्षाभुवो मूलं मूलं वरुणकस्य
च । जलेन कथितं पीतमपक्वं विद्रधिं
जयेत् ॥ ४५ ॥

सफेद पुनर्नवाकी जड़ और वरनाकी जड़ इनको
समान भाग लेकर जलमें काथ बनावे। इस काथको
पान करनेसे अपक्व विद्रधिरोग दूर होता है ॥ ४५ ॥

सौभाञ्जनकानिर्यूहो हिङ्गुसैन्धवसंयु-
तः । अचिराद्विद्रधिं हन्ति प्रातः
प्रातर्निषेवितः ॥ ४६ ॥

सहिजनेके काथमें हींग और सैधानमक डालकर
प्रतिदिन प्रातःकाल पान करनेसे बहुत गीघ्र विद्रधि-
रोग नष्ट होता है ॥ ४६ ॥

शमयति पाठामूलं क्षौद्रयुतं तंडुला-
बुना पीतम् । अन्तर्भूतं विद्रधिमुद्ध-
तमाश्वेव मनुजस्य ॥ ४७ ॥

पाठकी जडको चावलोके जलके साथ पीसकर गहद मिलाकर पान करनेसे अन्तर्विद्रधि रोग नष्ट होता है ॥ ४७ ॥

कासीससैन्धवशिलाजतुहिंशुचूर्णमि-
श्रीकृतो वरुणबलकलजः कषायः ।
अभ्यन्तरोत्थितमपक्वमतिप्रमाणं नृ-
णामयं जयति विद्रधिसुग्रवीर्यम् ४८ ॥

वरुणकी छालके काथमे कासीस, सैधानमक, शिलाजीत और हींग इनका चूर्ण मिलाकर पान करनेसे अन्तर्विद्रधि, अपक्वविद्रधि, अत्यंत बढीहुई और सर्व प्रकारकी दारुण विद्रधि नष्ट होती है ॥ ४८ ॥

दन्तीचित्रकगोदन्तचिरबिल्वाश्वमा-
रकान् । आन्तरे वितरेद्विद्वानपक्वे
शोथविद्रधौ ॥ ४९ ॥

दंती, चीता, गोदंत, करज और कनेर इनको एकत्र पीसकर अन्तर्विद्रधि, अपक्व और शोथयुक्त विद्रधिरोगमे प्रयोग करे ॥ ४९ ॥

वरुणादिगणकाथमपक्वेऽभ्यन्तरोत्थि-
ते । उषकादिप्रतीवापं पिबेत्संशम-
नाय वै ॥ ५० ॥

अपक्व अन्तर्विद्रधिरोगमे वरुणादि औपधियोका काथ बनाकर उसमें गूगल अथवा हींग या जवाखार डालकर पान करे तो विद्रधिरोग जमन होता है ५० ॥

अपक्वे त्वेतद्दुद्दिष्टं पक्वे तु व्रणवत्
क्रिया ॥ ५१ ॥

अपक्व विद्रधिरोगमे यह उपचार कहा है और पक्व विद्रधिरोगमे व्रणके समान चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ५१ ॥

सुतेऽप्यूर्ध्वमधश्चापि भैर्याम्लसुगा-
सवैः । पेयो वरुणकादिस्तु मधुशिग्रु-
रसोऽथवा ॥ ५२ ॥

जो विद्रधिरोग ऊपर तथा नीचेका छवता हो तो ईशकी मदिरा, काजी, मदिरा और धासव इनको

वरुणादि गणकी औपधियोके काथक साथ पान करे अथवा लाल सहिजनेके रसके साथ पान करे ॥ ५२ ॥

मधुशिग्रस्तु मूलेन यवागूं साधुसा-
धिताम् । यवकोलकुलित्यानां सर्वै-
भुञ्जीत मानवः ॥ ५३ ॥

जौ, वेर और कुलथी, इनकी लालसहिजनेके जडके काथमे यवागू बनाकर सेवक करे । इनसे सर्व प्रकारकी विद्रधि नष्ट होती है ॥ ५३ ॥

भूनिम्बाद्यचूर्ण ।

भूनिम्बार्द्धपलं निशापलयुतं दाव्या
पले द्वे तथा मूर्वाधेन पुनर्नवां कुरु
समां दाव्याः समः प्रग्रहः । वा-
सादर्द्रयुतं पलन्तु कटुका योज्या त-
दर्धेन वै ह्यश्वाह्वं निशया समानम-
भृताकर्षास्तु पञ्चैव तु ॥ ५४ ॥ सर्व
वत्सकसप्तकर्षसहितं सुश्लक्ष्णचूर्णी-
कृतम् । वासायाः स्वरसेन भावित-
मिदं त्रीन् पञ्च वै वासरान् ॥ ५५ ॥
भूयस्तद्गुडवारिणा प्रतिदिनं पितं
पुरस्थे रवौ । पुंसां विद्रधिनाशनञ्च
कथितं तथ्यं स्वयं ब्रह्मणा ॥ ५६ ॥

चिरायता २ तोले, हलदी ४ तोले, दारुहलदी ८ तोले, मूर्वा २ तोले, पुनर्नवा २ तोले, स्योनाककी फलीके बीज ८ तोले, वासा २ तोले, कुटकी ४ तोले, अस-गन्ध ४ तोले, गिलेय ५ कर्ष (तोले) और कुडकी छाल ७ कर्ष लेवे सबको एकत्र वारीक पीसकर अड्ड-सेके रसमें तीन दिनतक अथवा पांच दिन अथवा आठ दिनतक खरल करके प्रतिदिन प्रातःकाल गुडके शरवतके साथ पान करे । इससे विद्रधिरोग नष्ट होता है यह ब्रह्माने स्वयं तथ्ययोग कहा है ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥

वरुणकाद्यघृत ।

सिद्धं वरुणादिगणे विधिना तत्काथ-
कल्पितं सर्पिः । शुद्धतनोस्तत्पीतं

भिषजा सद्योऽग्निजं प्रथितम् ॥ ५७ ॥
शिरसां शूलमशेषविद्रधिमन्तःस्थ-
मुग्रमपहरति । पञ्चविधं गुल्मगदं श-
मयति वारि बहुमुक्तात्रम् ॥ ५८ ॥

वरुणादिगणकी औषधियोंके काथमे घृतको सिद्ध करे पश्चात् वमन विरेचनादिसे शुद्धशरीर होकर इस घृतको पान करे । इससे मंदाग्नि, शिरःशूल, सर्व प्रकारकी विद्रधि, अन्तर्विद्रधि, उग्रविद्रधि और पाँच प्रकारका गुल्मरोग नष्ट होता है । इसपर बहुत भोजन किया हुआ भी अन्न और जल पच जाता है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥

करञ्जघृत ।

नक्तमालस्य पत्राणि वरुणादिफला-
नि च । सुमनायाश्च पत्राणि पटोला-
रिष्टयोस्तथा ॥ ५९ ॥ द्वे हरिद्वे मधू-
च्छिष्टं मधुकं तिक्तरोहिणी । प्रियंगु
कुशमूलञ्च निचुलस्य त्वगेव च ॥ ६० ॥
एतेषां कार्षिकैर्भागैर्वृतप्रस्थं विषा-
चयेत् । दुष्टव्रणप्रशमनं तथा नाडी-
विशोधनम् ॥ सद्यश्छिन्नं व्रणानाञ्च
करञ्जाद्यमिदं शुभम् ॥ ६१ ॥

करंजके पत्ते, वरुणके फल, चमेलीके पत्ते, परव-
लके पत्ते, नीमके पत्ते, हलदी, हारुहलदी, मोम,
मुलैठी, कुटकी, फूलप्रियंगु, कुशाकी जड़, जलवेत-
की त्वचा ये प्रत्येक औषधि एक २ तोला लेकर
कल्क बनाकर इस कल्कके द्वारा एकप्रस्थ घृतको
पकावे । यह घृत-दुष्ट व्रणोंको शमन करनेवाला,
नाडीव्रणोंको शुद्ध करनेवाला और तत्कालके उत्पन्न
हुए व्रणोंको भरनेवाला है ॥ ५९-६१ ॥

प्रियंग्वान्नतैल ।

तिक्तकटुफलकं सर्पिर्महातिक्तमथापि
वा । धान्वन्तरं वा नैम्बं वा विद्रधौ
योजयेत्सदा ॥ ६२ ॥

इस विद्रधिरोगमे तिक्तकटुफलक घृत, महातिक्त
घृत, धान्वन्तर घृत अथवा निम्बघृत ये सब प्रयोग
करने चाहिये ॥ ६२ ॥

प्रियंगुधातकीलोध्रं कटुफलं द्विनि-
शान्वितम् । एतत्तैलं विपक्तव्यं वि-
द्रधौ व्रणरोपणम् ॥ ६३ ॥

फूलप्रियंगु, धायके फूल, लोध, कायफल, हलदी
और दारुहलदी इनके कल्क और काथके द्वारा तेल-
को पकावे । यह तेल-विद्रधिके व्रणोंको भरता है
॥ ६३ ॥

द्विपञ्चमूलीतैल ।

द्विपञ्चमूलीत्रिफलाकुलित्थत्रिवृच्छ-
नैर्मूलकशियुगुक्तैः । तैलं तिलै-
रण्डजमेतदेभिः सिद्धं हितं विद्रधि-
गुल्मशूले ॥ ६४ ॥

द्विपञ्चमूल, त्रिफला, कुलथी, निसोत, मूली और
सहिजनेकी जड़ इनके कल्कके द्वारा तिलके तेलको
अथवा अंडीके तेलको पकाकर सेवन करनेसे विद्रधि
गुल्म और शूल नष्ट होता है ॥ ६४ ॥

इति श्रीवंगसेने भापाटीकाया विद्रधिनिदान-
चिकित्साधिकार समाप्तः ॥ ४९ ॥

अथ व्रणशोथाधिकार ।



शोथका पूर्वरूप ।

एकदेशोत्थितः शोथो व्रणानां पूर्व-
लक्षणम् । पड्विधः स्यात् पृथक् सर्व-
रक्तागन्तुसमुद्भवः ॥ १ ॥ शोथाः ष-
डैते विज्ञेयाः प्रागुक्तैः शोथलक्षणैः ।
विशेषः कथ्यते तेषां पक्वाऽपक्वा-
दिनिश्चये ॥ २ ॥

शरीरके किसी एक देगमे सूजन उत्पन्न हो,
उमने व्रणका पूर्वरूप जानना । वह सूजन वातज,
पित्तज, कफज, सन्निपातिक, रक्तज और आगन्तुज
इन भेदोंसे छ. प्रकारकी है । इन छःहोंके लक्षण

पूर्वोक्त शोथरोगके समान जानने । अब इनके पक्का-
पक्कादि निश्चयमे विशेष लक्षण कहते हैं ॥ १ ॥ २ ॥

व्रणपाक ।

विषमं पच्यते वातात्पित्तोत्थश्चा-
चिरं चिरम् । कफजः पित्तवच्छोथो
रक्तागन्तुसमुद्भवः ॥ ३ ॥

वातका शोथ विपमरीतिसे अर्थात् रुकरुक कर
पकता है, पित्तका शीघ्र पकता है, कफका बहुत देर
में पकता है और रक्तका आगन्तुक पित्तके समान
बहुत शीघ्र पकता है ॥ ३ ॥

अपक्वव्रणशोथके लक्षण ।

मन्दोष्मतालपशोथत्वं काठिन्यं त्व-
क् सवर्णता । मन्देवेदनता चैव शो-
थानामामलक्षणम् ॥ ४ ॥

✓ जिसमे गरमी और सूजन कम हो, व्रणका स्थान
कठोर हो, सूजनका रंग शरीरके वर्णके समान हो
आर वेदना थोड़ी हो उस व्रणशोथको अपक्व(कच्चा)
जानना ॥ ४ ॥

पच्यमानव्रणशोथके लक्षण ।

दह्यते दहनेनैव क्षारेणैव च पच्यते ।
पिप्पलिकागणेनैव दृश्यते छिद्यते
तथा ॥ ५ ॥ भिद्यते चैव शस्त्रेण द-
ण्डेनैव च ताड्यते । पीड्यते पाणि-
नैवान्तः सूचिभिरिव तुद्यते ॥ ६ ॥
सोषचोषो विवर्णः स्यादंगुल्यैवाव-
घट्यते । आसने शयने स्थाने शा-
न्तिं वृश्चिकविद्धवत् ॥ ७ ॥ न गच्छे-
दाततः शोथो भवेदाध्मानवस्तिवत् ।
ज्वरस्तृष्णारुचिस्त्वेतत् पच्यमानस्य
लक्षणम् ॥ ८ ॥

फोड़ेके पकनेके समय जो लक्षण होते हैं उनको
कहते हैं । जैसे अग्निस जलानेकीसी जलन, क्षार
लगानेकीसी चिनमिनाहट, चेटीके काटनेके समान,
छेदनके समान, जखसे चीरनेके समान, दूडेसे मार-
नेके समान, हाथसे भीतरको पीडित करनेके समान
सुई चुभानेकी और अंगुलियोंसे उखाडनेके समान

पीडा हो, दाहसे व्याप्त हो, अग्निसे संतप्तके
समान हो, असली रंगसे दूमरा रंग हो जाय, मूत्रा-
शयकं समान अथवा चमडेकी पुटकी समान फूला
हुआ हो, वीछूकी काटनेके समान बैठते, सोते
और उठते समय घोर पीडा हो अर्थात् कभी कहीं
चैन न पड़े और ज्वर तृषा तथा अरुचिसे संयुक्त हो
ये पकते हुए व्रणशोथके लक्षण है ॥ ५ ॥ ६ ॥
॥ ७ ॥ ८ ॥

पक्वव्रणशोथके लक्षण ।

वेदनोपशमः शोथो लोहितोऽल्पो
न चोन्नतः । प्रादुर्भावो वलीनाश्च
तोदः कण्डूर्मुहुर्मुहुः ॥ ९ ॥ उपद्रवा-
णां प्रशमो निम्नतास्फुटनं त्वचः ।
वस्ताविवांबुसञ्चारः शोथेऽगुलिनि-
पीडिते ॥ १० ॥ पूयस्य पीडयत्येक-
मन्तमन्ते च पीडिते । भक्तकाङ्क्षा
भवेच्चैव शोथानां पक्वलक्षणम् ॥ ११ ॥

व्रणशोथके पकने पर दाहादि पीडा शमन हो-
जाय, सूजनमे थोड़ी लाली हो, ऊँचाई कम होजाय,
उसमे सिकुडन पडकर सुई चुभाने सरीखी पीडा हो,
वारवार खुजली चले, ज्वरादि उपद्रव शांत होजाय,
अंगुलीसे ढवानेके समय गड्ढा पड जाय, त्वचा कुछ
फट जाय, सूजनको अंगुलीसे ढवानेसे जिस प्रकार
चमडेकी असकमेसे पानी एक स्थानमेसे दूसरे स्था-
नमे चला जाता है उसी प्रकार इसमेसे एक स्थानसे
राध दूसरे स्थानमे चली जाती है, एक प्रदेशको
ढवानेसे दूसरे प्रदेशमे राध जाकर भर जाय तथा
भूख लगे तो जानना कि सूजन पक गई है ॥ ९ ॥
॥ १० ॥ ११ ॥

गम्भीरपाकके लक्षण ।

कफजेषु तु शोथेषु गम्भीरं पाकमे-
त्यसृक् । पक्वं लिङ्गश्च तत् स्पष्टं यत्र
स्याच्छान्तशोफता ॥ १२ ॥ त्वक्
श्यावा च रुजोऽल्पत्वं यत्र स्पर्शत्व-
मश्मवत् । रक्तपातमिति ब्रूयान्तत्
प्राज्ञो मुक्तसंशयः ॥ १३ ॥

कफसे उत्पन्न हुई सूजनमे रुधिर गम्भीररीतिसे
पकता है तो भी पकजानेके लक्षण स्पष्ट होते हैं और

जिस समयसे सूजन पकने लगती है उस समय लाली तथा दाहादि पीडा होकर पश्चान् सूजनमें पकजानेकी अवस्था होजाती है तब गीतलता होजाती है, सूजनका रंग चमड़ेकी रंगके समान होता है, अल्पवेदना होती है और स्पर्शमें पत्थरके समान कठोरता होती है । इसकारण इसको निःसन्द्ग् वैद्य रक्तपाक ऐसा कहते हैं ॥ १२ ॥ १३ ॥

सूजनमें एक दोष उत्पन्न होनेके समय तीनों दोषोंका प्रादुर्भाव होता है उसको कहते हैं-

नत्तेऽनिलाद्गुण विना च पित्तं पाकः
कफाच्चापि विना न पृथः । तस्माद्धि
सर्वे परिपाककाले पचन्ति शोयास्त्रि-
भिरेव दोषैः ॥ १४ ॥

जैसे कि, वातके विना पीडा नहीं होती, पित्तके विना पाक नहीं होता और कफके विना राध नहीं होती इसकारण पकते समय सर्व ब्रणशोथ त्रिदोषान्वित होजाते हैं ॥ १४ ॥

शोथके पकनेमें मतान्तर ।

कालान्तरेणभ्युदितं तु पित्तं कृत्वा
वशे वातकफौ प्रसह्य । पचत्यतः
शोणितमेष पाको मनः परेषां विदुषां
द्वितीयः ॥ १५ ॥

कालान्तरसे उदय हुआ पित्त, वायु और कफको कम करके बलात्कारसे रुधिरका पकाता है, ऐसा अन्य विद्वानोंका मत है । पहले मतमें कफसे राध होती है ऐसा माना है और इस दूसरे मतमें रुधिरसे राध होती है ऐसा माना है इनमें इतना भेद है ॥ १५ ॥

पक्कब्रणमेंसे राध न निकालनेका परिणाम ।

कक्षं समासाद्य यथैव वाह्निर्वाग्धीरि-
तः सन्दहति प्रसह्य । तथैव पूयो
ह्यविनिःसृतो हि मांसं शिराः स्नायु
च खादतीह ॥ १६ ॥

जिसप्रकार सूखी घासमें प्राप्त हुई अग्नि पवनकी सहायतासे उस घासको बलात्कारसे जलाकर भस्म

कर देती है उसी प्रकार पक्क ब्रणमेंसे राध न निकालनेसे वह मांस, शिरा और नसोंको भक्षण कर जाती है ॥ १६ ॥

ब्रणशोथके पक्कापक जाननेमें वैद्यके गुणदोष ।

आमं विदह्यमानं हि सम्यक् पक्कश्च
यो भिषक् । जानीयात्स भवेद्वैद्यः
शेषास्तस्करवृत्तयः ॥ १७ ॥

जो वैद्य सूजनको अपक, पकता हुआ और उत्तम प्रकारसे पकाहुआ जानता है वही पूर्ण वैद्य है । वाकी जो ब्रणशोथकी पक्कापक अवस्थाको नहीं जानते उनको चोर समझना । क्योंकि उनका चोरोंके समान केवल धन लेनेकाही प्रयोजन होता है किंतु धर्म, यश और मित्रताका कुछ प्रयोजन नहीं होता ॥ १७ ॥

ब्रणरोगनिदान ।

द्विधा ब्रणः स विज्ञेयः शरीरागन्तुभे-
दतः । दोषैराद्यस्तयोरन्यः शस्त्रादि-
क्षतसम्भवः ॥ १८ ॥

शरीर और आगन्तुक इन भेदोंसे ब्रण दो प्रकारका है । उसमें शारीरिक वातादि दोषोंके प्रकोपसे होता है और आगन्तुक शस्त्रादिकी चोटके लगनेमें होता है ॥ १८ ॥

वातजब्रणके लक्षण ।

स्तब्धः कठिनसंस्पर्शो मन्दस्त्रावो
महारुजः । तुद्यते स्फुरति श्यावो
ब्रणो मारुतसम्भवः ॥ १९ ॥

वातजब्रण देखने और छूनेमें कठिन मालूम हो, जकड़ासा हो, उसमें थोड़ा स्राव हो और पीडा अधिक हो एवं सुई चुभाने सरीखी पीडा हो, फडकता हो और उसका रंग लालीलिये काला हो ॥ १९ ॥

पित्तजब्रणके लक्षण ।

तृष्णामोहज्वरक्लेददाहपाकावदारणैः ।
ब्रणं पित्तकृतं विद्याद्गन्धैः स्रावैश्च
पूतिकैः ॥ २० ॥

पित्तज ब्रणमें तृषा, मोह, ज्वर, क्लेद, जलन, पकना, फटना, दुर्गंध आना और स्राव होना ये सब लक्षण होते हैं ॥ २० ॥

कफज व्रणके लक्षण ।

बहुपिच्छो गुरु स्निग्धः स्तिमितो
मन्दवेदनः । पाण्डुवर्णोऽल्पसंक्केदश्चिर-
पाकी कफव्रणः २१ ॥

कफज व्रण अत्यन्त लिवालिया, भारी, चिकना,
आर्द्र, मन्दपीडायुक्त, पाण्डुवर्ण, अल्प स्रवनेवा-
ला और बहुत दिनोंमें पकनेवाला जानना ॥ २१ ॥

रक्तज और द्वन्द्वजव्रणके लक्षण ।

रक्तो रक्तस्रुतीरक्ताद्वित्रिजः स्यात्त-
दन्वयैः ॥ २२ ॥

जो व्रण रुधिरसे उत्पन्न होता है, वह रक्तवर्ण हो-
ता है, उसमें रुधिर स्रवता है, एक दोप और रुधिरके
सम्बन्धसे जो व्रण हो वह द्वन्द्वज और जो दो दोप
तथा रुधिरके सम्बन्धसे व्रण हो उसको सान्निपातिक
जानना ॥ २२ ॥

सुखसाध्यव्रणके लक्षण ।

त्वङ्मांसजः सुखे देशे तरुणस्या-
ऽनुपद्रवः। धीमतोऽभिनवः काले सुखे
साध्यः सुखं व्रणः ॥ २३ ॥

जो व्रण त्वचा और मांसमें उत्पन्न हुआ हो, एवं
सर्म्भरहित स्थानमें हो, उपद्रवरहित हो, तरुण और
बुद्धिमान् पुरुषोंके हो और नवीन हो तथा हेमन्त,
शिशिर और वसन्तऋतुमें उत्पन्न हुआ ऐसा व्रण
सुखसाध्य जानना ॥ २३ ॥

कृच्छ्रसाध्य और असाध्यव्रणके

लक्षण ।

गुणैरन्यतमैर्हीनस्ततः कृच्छ्री व्रणः
स्मृतः । सर्वैर्विहीनो विज्ञेयस्त्वसा-
ध्यो निरुपक्रमः ॥ २४ ॥

जिस व्रणमें सुखसाध्य व्रणके कुछेक लक्षण अर्थात्
थोड़े लक्षण हो, वह कष्टसाध्य और जिसमें सम्पूर्ण
लक्षण न हो चिकित्सा करी न हो, वह असाध्य
जानना ॥ २४ ॥

दुष्टव्रणके लक्षण ।

प्रातिप्यातिदुष्टासृक् स्राव्युत्सङ्गी
चिरस्थितिः । दुष्टव्रणोऽतिगन्धाद्व्यो
शुद्धलिङ्गविपर्ययः ॥ २५ ॥

जिस व्रणमें दुर्गन्धित पीव और दृपित रुधिर बहे,
ऊँचा, बहुत दिनोंका, एवं अत्यन्त दुर्गन्धादि युक्त
और शुद्ध व्रणके लक्षणोंसे विपरीत लक्षणोंवाला हो
उसको दुष्टव्रण जानना ॥ २५ ॥

शुद्धव्रणके लक्षण ।

जिह्वातलाभोऽतिमृदुः श्लक्ष्णः स्नि-
ग्धोऽल्पवेदनः । सुव्यवस्थो निरास्रा-
वः शुद्धो व्रण इति स्मृतः ॥ २६ ॥

जो व्रण जीभके तलेके भागके समान अत्यन्त
कोमल हं, स्वच्छ, स्निग्ध, अल्पपीडायुक्त, उत्तम
व्यवस्थायुक्त और स्रावरहित हो वह व्रण शुद्ध
जानना ॥ २६ ॥

व्रणः शुध्यति गन्धेन मृदुत्वञ्चोपग-
च्छति । रोहत्वं परिनिःसङ्गस्तस्मा-
द्गन्धः प्रशस्यते ॥ २७ ॥

गंध होनेसे व्रण शुद्ध होता है तथा मृदुता उत्पन्न
होती है और फिर स्वच्छ होकर भरने लगता है इस-
कारण व्रणमें गंधका होना उत्तम है ॥ २७ ॥

भरनेवाले व्रणके लक्षण ।

कपोतवर्णप्रतिमा यस्यान्तः क्लेदव-
र्जिताः । स्थिराश्च पिटिकावर्त्तो रो-
हतीति तमादिशेत् ॥ २८ ॥

जिस व्रणका रंग कवूतरके रंगके समान हो,
जिसमें स्राव न हो, व्रण स्थिर हो और जिसमें अकुर
मालूम हो उसको भरताहुआ व्रण जानना ॥ २८ ॥

दोषप्रकोपाद्द्रव्यायामादभिघातादजी-
र्णतः ॥ हर्षात्क्रोधाद्द्रव्याच्चैव व्रणो
रूढोऽपि दीर्घते ॥ २९ ॥

वातादिदोषोंके प्रकुपित होनेसे, व्यायाम (परि-
श्रम दण्डकसरत आदि) करनेसे, अभिघात (चोट
जादिके लगने) से, अजीर्णसे, हर्ष, क्रोध और भयके
होनेसे भराहुआ व्रण भी विदीर्ण होजाता है ॥ २९ ॥

व्याधिविशेषसे त्रणको कृच्छ्रसाध्यत्व कहते हैं।

कुष्ठिनां विषजुष्टानां शोषिणां मधु-
मेहिनाम् । त्रणाः कृच्छ्रेण सिध्यन्ति
येषां चापि त्रणे त्रणाः ॥ ३० ॥

कुष्ठरोगी, विषरोगी, क्षयरोगी, मधुमेहरोगी
ऐसे मनुष्योंका और जिनके त्रणमे त्रण उत्पन्न
हो गया हो ऐसे मनुष्योंका त्रण अत्यन्त कष्टसाध्य
होता है ॥ ३० ॥

साध्यासाध्य लक्षण ।

वसां भेदोऽथ मज्जानं मस्तुलुङ्गञ्च यः
स्रवेत् । आगन्तुजो त्रणः सिद्धयेन्न सि-
ध्येदोषसम्भवः ॥ ३१ ॥

जिस त्रणमे वसा, मेद, मज्जा और मस्तिष्क क्षेद
वहते हैं, वह यदि आगन्तुज हो तो साध्य और
वातादिदोषजनित हों तो असाध्य जानना ॥ ३१ ॥

मद्यागुर्वाज्यसुमनःपद्मचन्दनचम्पकैः।
सुगन्धा दिव्यगन्धाश्च सुमूर्पूर्णां त्रणाः
स्मृताः ॥ ३२ ॥

जिन त्रणोमे मदिरा, अगर, घी, कमल और
चम्पाके फूलोंकीसी तथा चन्दन आदिकी सुगन्ध
और दिव्य गन्ध आवे वह त्रण मरनेवाले रोगियोंके
होते हैं ॥ ३२ ॥

ये च मर्मसु संभूता भवन्त्यत्यर्थवे-
दनाः । दह्यन्ते चान्तरत्यर्थं बहिः
शीताश्च ये त्रणाः ॥ ३३ ॥ दह्यन्ते
वहिरत्यर्थं भवन्त्यन्तश्च शीतलाः ।

प्राणमांसक्षयश्वासकासारोचकपीडि-
ताः ॥ ३४ ॥ प्रवृद्धप्यरुधिरा
त्रणा येषाञ्च मर्मसु । क्रियाभिः
सम्यगारब्धा न सिध्यन्ति च ये त्रणाः
॥ ३५ ॥ वर्जयेदपि तान् वैद्यः संरक्ष-
न्नात्मनो यशः ॥ ३६ ॥

जो त्रण मर्मस्थानोमे उत्पन्न हुए हो और उनमे
अधिक वेदना हो एवं जिन त्रणोंके भीतर दाह हो
और ऊपरसे शीतल हा तथा जिनमे बाहर
दाह हो और भीतर शीतलता हो, अथवा जिस

त्रणरोगीके प्राणवल और मांसका क्षय हो गया हो,
श्वास खौंसी और अरुचि इनसे त्रणरोगी पीडित हो,
तथा जो त्रण मर्मस्थानोमे उत्पन्न हुए हैं और उनमे
पीव रक्त अत्यन्त बड़े बड़े त्रण, अथवा जिन त्रणोंकी
उत्तम चिकित्सा करनेपर भी आराम न हो ऐसे
त्रणोंको अपने यशकी इच्छा करनेवाले वैद्य छोड़
देवे ॥ ३३-३६ ॥

त्रणरोगकी चिकित्सा ।

आदौ विम्लापनं कुय्याद्वितीयमवसे-
चनम् । तृतीयमुपनाहन्तु चतुर्थी पा-
टनक्रियाम् ॥ ३७ ॥ पञ्चमं शोधनं
कुय्यात् षष्ठं रोपणभिष्यते । एते क्र-
मा त्रणस्योक्ताः सप्तमं च कृतापह-
म् ॥ ३८ ॥

त्रणशोथमे प्रथम विम्लापन (पोटली बाँधकर
उससे सेकना) द्वितीय अवसेचन, तृतीय पुलिटस
बाँधना, चतुर्थ छेदन, पंचम शोधन, षष्ठ रोपण और
सप्तम वैकृतनाश यह त्रणकी चिकित्सा करनेकी
क्रियाएँ क्रमसे कही हैं ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

मातुलिङ्गाग्निमन्थौ च सुरदारुमहौ-
षधम् । अहिंस्त्रा चैव रास्ना च प्र-
लेपो वातशोथनुत् ॥ ३९ ॥

विजौरानाचू, अरणी, देवदारु, सोठ, हीस और
रायसन इन सबको एकत्र मिलाकर पीस कर प्रलेप
करनेसे वातज त्रणशोथ नष्ट होता है ॥ ३९ ॥

कल्कः काञ्जिकसंपिष्टः स्निग्धः शा-
खोटकत्वचः । सुपर्ण इव नागानां
वातशोथविनाशनः ॥ ४० ॥

सिंहोडेकी छालको काँजीमें पीस कर घृत मिला-
कर प्रलेप करनेसे वातजत्रणशोथ इस प्रकार नष्ट
होता है जैसे गरुड सर्पोंका तत्काल नाश कर देता
है ॥ ४० ॥

शिरषिोन्मत्तबीजानि हिंस्त्रा काला
सुदर्शनः । तंडुलीयकमूलश्च प्रलेपः
शोथनाशनः ॥ ४१ ॥

सिरसके बीज, धतूरेके बीज, हीस, कलम्बक, सुद-
र्शन और चौलाईकी जड़ इनको एकत्र पीसकर प्रलेप
करनेसे त्रणशोथ नष्ट होता है ॥ ४१ ॥

दूर्वा च नलमूलश्च मधुकं चन्दनं तथा । शीतलाश्च गणाः सर्वे प्रलेपः पित्तशोथहा ॥ ४२ ॥

दूब, नलकी जड़, मुलैठी, चन्दन और सर्व प्रकारकी शीतल औषधियाँ इनका प्रलेप पित्तजत्रणशोथको दूर करता है ॥ ४२ ॥

बृहन्न्यग्रोधोधादिलेप ।

न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थप्लक्षवेतसशेलुभिः । चन्दनद्वयमञ्जिष्ठायाष्टीसूरणगैरकैः ॥ ४३ ॥ शतधौतवृतोन्मिश्रैर्लेपो रक्तप्रसादनः । दाहपाकरुजास्त्रावशोफनिर्वापणः परः ॥ ४४ ॥

बड़, गूलर, पीपल, पाखर, वेत, बेल, चन्दन, लाल-चन्दन, मजीठ, मुलैठी, जमीकन्द और गेरु इन सबको एकत्र पीसकर सौवार धुले हुये घीमें मिला कर लेप करनेसे रुविर स्वच्छ होता है, तथा दाह, पकना, पीडा, स्त्राव और सूजन ये सब दूर होते हैं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

विधिर्विषघ्नो विषजे पित्तघ्नोऽपि हितो विधिः ॥ ४५ ॥

विषजत्रणशोथमें विषनाशक चिकित्सा करनी चाहिए और इसमें पित्तनाशक विधि भी हितकारी है ॥ ४५ ॥

अजगन्धाजशृङ्गी च काला सरलमेव च । एकांशिकाश्वगन्धा च प्रलेपः श्लेष्मशोथहा ॥ ४६ ॥

अजगन्धा (वनतुलसी), मेढाशिगी, कलम्बक, धूपसरल, काला निसोत और असगव इन सबको एकत्र पीसकर प्रलेप करनेसे कफजत्रणशोथ नष्ट होता है ॥ ४६ ॥

पुनर्नवादारुशिशुदशमूलमहौषधेः । कफवातकृते शोथे लेपः कोष्णो विधीयते ॥ ४७ ॥

पुनर्नवा, देवदारु, सहिजना, दशमूल और मोठ इनको एकत्र पीसकर मद्दोष्ण करके प्रलेप करनेसे कफवातजनित शोथ नष्ट होता है ॥ ४७ ॥

पिण्डीतकात्रयं लोध्रं पूर्वजैश्च प्रकीर्त्तिताः । वर्गास्त्रयः प्रलेपेन शोथे सर्वकृते हितः ॥ ४८ ॥

पहिले पिण्डीतक और लोध्रादिक जो तीन वर्ग कहे है उनको पीसकर प्रलेप करनेसे सर्व प्रकारके त्रणशोथ नष्ट होते हैं ॥ ४८ ॥

स्निग्धाऽम्ललवणैर्वर्ति स्निग्धः शीतः पयोऽन्वितः । पित्ते कोष्णः कफे क्षारमूत्राढ्यस्तप्रशान्तये ॥ ४९ ॥

वातजत्रणशोथमें स्निग्ध अम्ल और लवणमिश्रित प्रलेप करना चाहिये, पित्तजत्रणशोथमें स्निग्ध, शीतल और दूध मिश्रित प्रलेप करना चाहिये और कफजत्रणशोथमें मद्दोष्ण, क्षार तथा गोमूत्रादिक मिश्रित प्रलेप करना चाहिये ॥ ४९ ॥

न रात्रौ लेपनं कुर्यादत्तश्च पतितं तथा । न च पर्युषितं चैव शुष्यमाणं न धारयेत् ॥ ५० ॥

रात्रिमें प्रलेप नहीं करना चाहिये यदि किया हुआ लेप पतित हो जाय तो उसका दूसरी बार लेप नहीं करे और जो किया हुआ लेप सूख जाय तो तत्काल उसको छुड़ा देना चाहिये एवं वासी लेप नहीं करना चाहिये ॥ ५० ॥

न प्रशास्यति यः शोथः प्रलेपादिविधानतः । द्रव्याणि पाचनीयानि दद्यात्तत्रोपनाहने ॥ ५१ ॥

जो त्रणशोथ प्रलेपादिकी विधिसे शांत नहीं हो तो त्रणको पकानेवाली औषधियोंको बाँधकर शांत करे ॥ ५१ ॥

शोथयोरुपनाहन्तु कुर्यादांमविदग्धयोः । प्रशास्यत्यविदग्धस्तु विदग्धः पाकमेति च ॥ ५२ ॥

जो त्रणकी सूजन कमी हो अथवा अच्छे प्रकारसे न पकी हो तो उसके ऊपर उपनाह स्वेद देना चाहिये । यदि सूजन कमी हो तो उपनाह स्वेद देनेमें शांत हो जाती है और पकने लगी हो तो तत्काल पक जाती है ॥ ५२ ॥

कटुतैलान्वितैलपात सर्पनिर्मोकभ-
स्मभिः । चयः शाम्यति गण्डस्य
प्रकोपः स्फुटति ध्रुवम् ॥ ५३ ॥

साँपकी कैचलीको जलाकर भस्म करलेवे, फिर
इस भस्मको कडवे तेलमे मिलाकर लेप करनेसे
व्रण शोथकी पीडा शांत होती है और व्रणकी गॉठ
तत्काल फूट जाती है ॥ ५३ ॥

दण्डोत्पलकमूलेन पिष्टिका संप्रले-
पिता । तंडुलोदकपिष्टेन नाशमा-
यात्यसंशयम् ॥ ५४ ॥

दण्डोत्पलकी जड़को चावलके जलमे पीसकर
व्रणकी पिष्टिकाके ऊपर प्रलेप करनेसे व्रणशोथ
अवश्य नष्ट होता है ॥ ५४ ॥

उपनाहद्रव्य ।

सतिला सातसी बीजा दध्यम्ला स-
कुपिण्डिका । सकिण्वकुष्ठलवणा
शस्ता स्यादुपनाहने ॥ ५५ ॥

तिल, अलसीके बीज, दही, कॉजी, सत्तूकी पिंडी,
खल, कूठ और लवण ये सब उपनाहकर्ममे प्रयोग
करने चाहिये ॥ ५५ ॥

शणमूलकशिशूणां फलानि तिलस-
र्षपाः । सक्तवः किण्वमतसी प्रदेहः
पाचनः स्मृतः ॥ ५६ ॥

सन, मूली सहिजनेके बीज, तिल, सरसो,
सत्तू, खल और अलसी—इन सबको एकत्र पीसकर
प्रलेप करनेसे व्रणशोथ अच्छे प्रकारसे पकजाता है
॥ ५६ ॥

संपूर्णैः स्नेहपानैः संदिग्धैश्चोपना-
हनैः ॥ प्रदेहपरिषेकैश्च वातव्रणमुपा-
चरेत् ॥ ५७ ॥

सर्वप्रकारके स्नेहपान, सर्वप्रकारके उपनाह स्वेद,
प्रलेप और परिषेक ये सब वातव्रणशोथमे प्रयोग
करने चाहिये ॥ ५७ ॥

शीतलैर्मधुरस्निग्धैः प्रदेहपरिषेचनैः ।
अन्नपानाशनैः सर्वैः पित्तव्रणमुपाच-
रेत् ॥ ५८ ॥

पित्तव्रणशोथमे समस्त शीतल, मधुर और स्निग्ध
पदार्थोंके प्रलेप, परिसेचन, अन्न, पान और भोजन
ये सब प्रयोग करने चाहिये ॥ ५८ ॥

रुक्षैः कटुभिरुष्णैश्च प्रदेहपरिषेच-
नैः । कफव्रणं प्रशमयेत्तथा लङ्घनपा-
चनैः ॥ ५९ ॥

कफव्रणशोथमे रुक्ष, कटु और उष्ण प्रलेप, परि-
सेचन, लंघन और पाचन ये सब प्रयोग करने
चाहिये ॥ ५९ ॥

रुजावतां दारुणानां कठिनानां त-
थैव च । शोथानां स्वेदनं कार्यं ये
चाप्येवाविधा व्रणाः ॥ ६० ॥

जो व्रणशोथ वेदनायुक्त, दारुण और कठिन हो
उसके ऊपर स्वेदन करना चाहिये और जो व्रणकी
सूजन भी इसी प्रकार हो तो उसके ऊपर भी
उपनाह स्वेद देना चाहिये ॥ ६० ॥

रक्तमोक्षण ।

वेदनांपशमाद्वापि तथा पाकभया-
दपि । सुचिरोत्पतिते शोथे कार्यं
शोणितमोक्षणम् ॥ ६१ ॥

वेदनाके शमन होनेके लिये और पाकके भयसे
चिरकालसे उत्पन्न हुई सूजनमेसे रुधिर निकलवाना
चाहिये ॥ ६१ ॥

सशोथे कठिने श्यामे सरक्ते वेदना-
वति । संरब्धे विषमे वापि व्रणे वि-
स्त्रावणं हितम् ॥ ६२ ॥

जो व्रणमें सूजन हो, व्रण कठिन, काला, लाल,
अत्यन्त वेदनायुक्त, स्तब्ध और विषम हो तो विस्त्रा-
वणविविध करनी चाहिये ॥ ६२ ॥

वातपित्तप्रदुष्टेषु दीर्घकालानुबन्धि-
षु । विरेचनं प्रशंसन्ति व्रणेषु व्रण-
कोविदाः ॥ ६३ ॥

जो व्रण वातपित्तसे दूषित हो, तथा जो बहुत
दिनोंके है उन व्रणोंमे व्रणको जाननेवाले वैद्य
विरेचन देवे ॥ ६३ ॥

अन्तः प्रथिष्टवक्रेषु सदैवोत्सर्गवत्स्व-
पि । गतिमत्सु च रोगेषु भेदनं प्रा-
प्तमुच्यते ॥ ६४ ॥

जिस व्रणके भीतर राध भररही हो, जिसका मुँह
होगया हो, जिसके चारोओर राध फैल गई हो
अर्थात् भीतरसे पोलासा हो गया हो तो ऐसे व्रणको
एवं नाडी व्रणको तत्काल फोड देवे ॥ ६४ ॥

शस्त्रसे भेदन निषेध ।

बालवृद्धासहक्षीणभीरूणां योषिता-
मपि । मर्मोपरि च जातेषु भेदनं
द्रव्यलेपनम् ॥ ६५ ॥

बालक, वृद्ध, जो शस्त्रभेदनको न सह सके ऐसा
मनुष्य, क्षीणमनुष्य, डरपोक तथा स्त्रिये इनके उत्पन्न
हुए व्रण एवं मर्मस्थानोंमें उत्पन्न हुए व्रणको औष-
धियोंका लेप करके भेदन करे, शस्त्रसे कदापि नहीं
चिरे ॥ ६५ ॥

चिरबिल्वान्निको दन्ती चित्रको ह-
यभारकः । कपोतकाकगृध्राणां पुरी-
षाणि च दारुणम् ॥ ६६ ॥

करंज, भिलावे, दती, चीता, केनेर, कवूतर
कौआ और गीधकी विष्टा इन सबको एकत्र करके
प्रलेप करनेसे व्रण तत्काल फूटजाता है ॥ ६६ ॥

अत्यर्थ कठिना यान्ति शोथाः पाच-
नभेदनम् । द्रव्याणां पिच्छलानां त्व-
ङ्मूलेन परिपीडिताः ॥ ६७ ॥ यवगो-
धूममाषाणां चूर्णानि च समासतः ।
शुष्यमाणमुपेक्षेत प्रदेहं पीडनं प्रति ॥
न चापि मुखमालिम्पेतथा दोषः प्र-
सिच्यति ॥ ६८ ॥

जो शोथ अत्यन्त कठिन हो तो पकाना और
भेदन करना चाहिए अत्यन्त चिकनी औषधियोंकी
जडकी छालको पीसकर व्रणशोथपर लगानेसे सूजन
नष्ट होजाती है जो, गेहूँ और उडड इनको एकत्र
पीसकर लुपरी बनाकर बाँधनेसे तत्काल सूजन नष्ट
हो जाती है । सूजनको सुखानेके लिये जो लेप करे
उसमें सुखा देना चाहिए, किन्तु गीलाही नहीं छुडाना
चाहिए क्योंकि प्रदेह सूखनेसे व्रणका पीडन हो

जाता है । और सूजनके मुखपर लेप नहीं करना
चाहिये क्योंकि इस प्रकार करनेसे सूजनमेंसे दोष
स्रवते है ॥ ६७ ॥ ६८ ॥

शोधन ।

ततः प्रक्षालनः काथः पटोलनिम्ब-
पत्रजः । अविशुद्धे विशुद्धे तु न्यग्रो-
धादित्वगुद्भवः ॥ ६९ ॥

पश्चान् पटोलपत्र और नीमके पत्तोंका काथ बना
कर उससे व्रणको धोवे । न्यग्रोधादिगणकी औषधि-
योकी छालका काथ बनाकर शुद्ध और अशुद्ध सर्व
प्रकारके व्रणोंको धोवे ॥ ६९ ॥

पञ्चमूलीद्वयं वाते न्यग्रोधादिश्च पै-
त्तिके । आरग्वधादिको योज्यः कफ-
जे सर्वकर्मसु ॥ ७० ॥

दशमूलका काथ वातजव्रणमें, न्यग्रोधादिगणकी
औषधियोंका काथ पित्तजव्रणमें और आरग्वधादि-
गणकी औषधियोंका काथ कफके व्रणमें शोधनके
लिये उत्तम है । अथवा सब कर्मोंमें प्रयोग करने
चाहिये ॥ ७० ॥

त्रिफला खदिरो दावीं न्यग्रोधादि
बलाकुशाः । निम्बकोलकपत्राणि
कषायाः शोधने हिताः ॥ ७१ ॥

त्रिफला, खैर, दारुहलदी, न्यग्रोधादिगणकी
औषधियाँ, खिरैदी,, कुशा, नीम और बेरीके पत्ते
इन सबके काथ व्रणके शोधनमें अत्यन्त हितकारी
है ॥ ७१ ॥

गृहधूमः सलवणः सकिण्वतिलचित्र-
कः । मेदो दुष्टव्रणान्याशु शोषये-
न्मधुमिश्रितः ॥ ७२ ॥

घरका धुँआसा, सेधानमक, खल, तिल और
चीता इन सबको एकत्र पीसकर शहदमें मिलाकर
प्रयोग करनेसे मेद, दुष्टव्रण प्रभृति सब रोग नष्ट हो
जाते है ॥ ७२ ॥

तिलसैन्धवयष्ट्याहनिम्बपत्रनिशायु-
गैः । त्रिवृद्धृतयुतैः पिष्टैः प्रलेपो
व्रणशोधनः ॥ ७३ ॥

तिल, सैधानमक, मुलैठी, नीमके पत्ते, हलदी, दारुहलदी और निसोत इन सबको एकत्र पीसकर घृतमें मिलाकर प्रलेप करनेसे व्रण शुद्ध होता है ॥ ७३ ॥

**एकं वा शारिवामूलं सर्वव्रणविशो-
धनम् ॥ ७४ ॥**

केवल एक शारिवाकी जड़को पीस कर प्रलेप करनेसे सब प्रकारके व्रण शुद्ध होते हैं ॥ ७४ ॥

**निम्बपत्रतिलैः कल्को मधुना क्षत-
शोधनः । रोपणः सर्पिषा युक्तो यव-
कल्केऽप्ययं विधिः ॥ ७५ ॥**

नीमके पत्ते और तिल इनको एकत्र पीसकर गह-
दमें मिलाकर लेप करनेसे व्रण शुद्ध होता है । इसी
प्रकार जौके कल्कमें घी मिलाकर व्रणपर लगानेसे
व्रण भरने लगता है ॥ ७५ ॥

**व्रणान् विशोधयेद्वर्त्या सूक्ष्माश्च सं-
धिवर्त्मजान् । अभयात्रिवृतादन्ती-
लाङ्गलीमधुसैन्धवैः ॥ ७६ ॥**

सन्धि और वर्त्ममें उत्पन्न हुए सूक्ष्म व्रणोंको हरड़,
निमोत, दंती, कलिहारी, गहद और सैधानमक
इनकी वत्ती बनाकर गोध अर्थात् व्रणमें लगावे ॥ ७६ ॥

**अपेतपूतिमांसानां मांसस्थानमरो-
हताम् । कल्कस्तु रोपणो देयस्तिल-
जो मधुसंयुतः ॥ ७७ ॥**

जो व्रण मांसमें हो और उसमेंसे सड़ाहुआ मांस
निकलता हो और भरता न हो तो उसके ऊपर
तिलोका कल्क गहदमें मिलाकर लगानेसे व्रण भरने
लगता है ॥ ७७ ॥

**निम्बपत्रमधुभ्यान्तु युक्तः संशोधनः
परः । पूर्वाभ्यां सर्पिषा वापि युक्तः
सरोपणः परः ॥ ७८ ॥**

नीमके पत्ते और गहदको एकत्र पीसकर, व्रणपर
लगानेसे व्रण शुद्ध होता है । अथवा पूर्वोक्त औषधि-
योंको घृतमें मिलाकर प्रयोग करनेसे व्रण भरजाता
है ॥ ७८ ॥

**निम्बपत्रघृतक्षौद्रदावींमधुकसंयुता ।
वर्तिस्तिलानां कल्को वा शोधये-
द्रोपयेद्ब्रणान् ॥ ७९ ॥**

नीमके पत्ते, घी, गहद, दारुहलदी और मुलैठी इन
को एकत्र पीसकर वत्ती बनाकर अथवा केवल ति-
लोंका कल्क बनाकर लगानेसे व्रण शुद्ध होता है अ-
थवा भरता है ॥ ७९ ॥

**अश्वगन्धारुहालोद्भ्रकटफलं मधुय-
ष्टिका । समङ्गा धातकीपुष्पं परमं
व्रणरोपणम् ॥ ८० ॥**

अश्वगन्ध, कुटकी, लोध, कायफल, मुलैठी, मजीठ
और धायके फूल ये व्रणको भरनेके लिये उत्तम औ-
षधियां हैं ॥ ८० ॥

**प्रपौण्डरीकं जीवन्ती गोजिह्वाधात-
की बला । रोपणं सतिलं दद्यात् प्र-
लेपं सवृत्तं व्रणे ॥ ८१ ॥**

पुंडेरिया, जीवती, गोजिया, धायके फूल, खिर-
टी और तिल इनको एकत्र पीसकर घृत मिलाकर
प्रलेप करनेसे व्रण भरजाता है ॥ ८१ ॥

**यष्टी तिलाः सुपिष्टा वा सवृता व्रण-
रोपणे । धातकीचन्दनबलासमङ्गा-
मधुकोत्पलेः । दावींमेदातिलैर्लेपः
ससर्पिर्व्रणरोपणः ॥ ८२ ॥**

मुलैठी और तिलोंको एकत्र पीसकर घृत मिला-
कर लेप करनेमें व्रण भरजाता है अथवा धायके फूल-
चंदन, खिरटी, मजीठ, मुलैठी, कमल, दारुहलदी,
मेदा और तिल इन सबको एकत्र पीसकर घृत
मिलाकर व्रणपर लगानेसे व्रण भरजाता है ॥ ८२ ॥

**निम्बपत्रतिलादन्तीत्रिवृत्सैन्धवमा-
क्षिकम् । दुष्टव्रणप्रशमनो लेपः शो-
धनकेशरी ॥ ८३ ॥**

नीमके पत्ते, तिल, दंती, निसोत, सैधानमक
और गहद इन सबको एकत्र पीसकर प्रलेप करनेसे
दुष्टव्रण भरता है, यह लेप व्रणको शुद्ध करनेमें
अत्यंत उत्तम है ॥ ८३ ॥

वसुक्रार्जुनविक्रान्तामांसीलोध्रनि-
शायुगेः । तिलबर्हिशिखारिष्टैलंपो
दुष्टव्रणापहः ॥ ८४ ॥

सफेदमदार, अर्जुनकी छाल, कोइली, बालछड,
लोध, हलदी, दारुहलदी, निल, माराशिखा और
नीमके पत्ते सबको एकत्र पीसकर प्रलेप करनेसे
दुष्टव्रण शमन होता है ॥ ८४ ॥

कटुफलदाडिमरजनीप्रियंगुफलताम्र-
पुष्पिकापुष्पैः । धात्रीरससंपिष्टैर्दुष्ट-
व्रणरोपणः कल्कः ॥ ८५ ॥

कायफल, अनारके फलकी छाल, हलदी, फूल-
प्रियंगु और धायके फूल सबको आमलोके रसमें
पीसकर लेप करनेसे दुष्टव्रण शमन होता है ॥ ८५ ॥

सर्षपतैलविमिश्रो रविकरसंशोपि
तस्तु सप्ताहम् । विषनिशयोः सम-
भागो दुष्टव्रणनाशनः कथितः ॥ ८६ ॥

अतीस और हलदी इनको एकत्र पीसकर सरसोके
तेलमें मिलाकर सात दिनतक धूपमें सुखाकर व्रणपर
लगावे तो दुष्टव्रण शमन होता है ॥ ८६ ॥

गम्भीरे शुष्कमांसे च व्रणे चोच्छा-
दनं मतम् । अपामार्गोऽश्वगन्धा च
तालपत्री तथैव च । उच्छादने प्रश-
स्यन्ते काकोल्यादिश्च यो गणः ॥ ८७ ॥

जो व्रण गम्भीर हो और उसका मांस सूख गया
हो तो उच्छादनविधि करनी चाहिये । चिरचिटा,
असगध, मूसाकर्णी (अथवा मुसली) और काको-
ल्यादिगणकी समस्त औषधियाँ ये सब उच्छादन-
कर्ममें प्रयोग करनी चाहिए ॥ ८७ ॥

सुपवीपत्रधत्तूरकर्णमोटकुठेरकाः । पृ-
थगेते प्रलेपेन गम्भीरव्रणरोपणाः ॥ ८८ ॥

कलंजीके पत्ते, धतूरेके पत्ते, कर्णमोरटलता और
करेला इन सबको अलग अलग पीसकर पृथक् पृथक्
प्रलेप करनेस गहरा व्रण भी भरजाता है ॥ ८८ ॥

ककुभोदुम्बराश्वत्थजंजूकफललोध्रजैः ।
त्वक्चूर्णैश्चूर्णिताः क्षिप्रं संग्रहन्ति
व्रणं युवम् ॥ ८९ ॥

अर्जुनकी छाल, गुलरकी छाल, पीपलकी छाल,
जामुनकी छाल और लोध इन सबका चूर्ण करके
व्रणके ऊपर डालनेसे व्रण भरजाता है ॥ ८९ ॥

सदाहा वेदनावन्तो ये व्रणा मारुतो-
त्तराः । तेषां तिलालुमांश्वैव भृष्टान्
पयसि निर्वृतान् । तेनैव पयसा पिष्ट्वा
दद्यादालेपनं भिषक् ॥ ९० ॥

जो वातके व्रण दाह और वेदनायुक्त हों तो उनमें
तिल और अलसीको दूधमें भूनकर और दूधमें
पकाकर पीसकर एव लेप करनेसे व्रण भरजाता
है ॥ ९० ॥

द्विपञ्चमूलकल्केन कथितेनाम्भसा-
पि वा । सर्पिषा सह तैलेन कोष्णेन
परिषेचयेत् ॥ ९१ ॥

द्वजमूलके कल्क अथवा काथके द्वारा उपर्युक्त
व्रणोको धोना चाहिये अथवा घृत और तेलको मिला-
कर संदोषण करके व्रणपर सेचन करना चाहिये ९१

यद्वचूर्णं समयुक्तं सह तैलेन सर्पिषा ।
दद्यात्प्रलेपनं कोष्णं दाहशूलोपशा-
न्तये ॥ ९२ ॥

जौका चूर्ण, मुलेठीका चूर्ण, तेल और घी इन
सबको एकत्र मिलाकर सुहाता २ व्रणपर लेप करनेसे
दाह और गूल शांत होता है ॥ ९२ ॥

उच्छूनमृदुमांसानां व्रणानामवसा-
दनम् । जातीपुष्पं मनोह्रा च स्नुही-
काससच्चित्रकैः ॥ ९३ ॥

चमेलीके फूल, मेनशिल, थूहर और चीता इनको
एकत्र पीसकर ऊपरको उठे हुए और मृदु मांसवाले
व्रणपर लेप करे इससे अवसादन होता है अर्थात्
उठा हुआ मांस नीचेको बैठजाता है ॥ ९३ ॥

मांसोत्थिताश्चिरोत्थाश्च दुःशोथक-
ठिनान्त्रणान् । दण्डोद्भूतसमायुक्ता-
ञ्छोधयेत् क्षारकर्मणा ॥ ९४ ॥

मांसमे उत्पन्न हुए, बहुत दिनोंके पुराने, दुष्टजा-
थयुक्त, कठिन और दण्डसे उत्पन्न हुए ऐसे व्रणोंको
क्षार कर्मके द्वारा शुद्ध करे ॥ ९४ ॥

वातादिभूतान्सस्त्रावान् धूपयेदुग्र-
वेदनान् । यवाज्यभूर्जमदनश्रीविष्ट-
कसुराह्वयैः ॥ ९५ ॥ श्रीवासगुग्गु-
ल्वगुरुसालनिर्यासधूपिताः । कठि-
नत्वं व्रणा यान्ति नश्यन्त्यास्त्राववेद-
नाः ॥ ९६ ॥

वातादि दोषोंसे उत्पन्न हुए, स्रावयुक्त और
जितमे उपवेदना हो ऐसे व्रणोंको जौ, घी, भोजपत्र,
मैनफल, श्रीवेष्ट (विरोजा), देवदारु, श्रीवास
(लोवान), गृगल, अगर और राल इन सबकी धूनी
देनेसे व्रण कठिन होजाते हैं तथा स्राव और पीडा
जमन होती है ॥ ९५ ॥ ९६ ॥

रक्तपित्तविषागन्तुगम्भीरान्सोष्म-
णान्त्रणान् । क्षीररोपणभैषज्यशृते-
नाज्येन रोपयेत् ॥ ९७ ॥

रक्त और पित्तसे उत्पन्न हुए, विषसे उत्पन्न हुए,
आगन्तुक, गम्भीर और उष्णतायुक्त ऐसे व्रणोंको
दूध और रोपण औषधियोंसे पकाये हुए घृतसे रोपण
करे ॥ ९७ ॥

निर्वापनवृत्तं क्षौद्रं तैलं मधुकचन्दन-
म् । लेपनं शोथरुग्दाहरक्तं निर्वाप-
येद्द्रणान् ॥ ९८ ॥

घी, गृहद, तेल, मुलैठी और चन्दन इन सबको
एकत्र मिलाकर व्रणमें प्रलेप करनेसे सूजन, व्रणकी
पीडा, दाह और विकृतरुविर दूर होता है ॥ ९८ ॥

करञ्जारिष्टनिर्गुण्डी रसो हन्याद्ब्रण-
कृमीन् ।

करज, नीमके पत्ते और निर्गुण्डी इनका रस
निकालकर व्रणके ऊपर डालनेसे व्रणके कृमि नष्ट
होजाते हैं ।

कलायविदलीपत्रं कोशाम्नास्थि च
पूरणात् । सुरसादिरसैः सेको लेपनं
लशुनेन वा ॥ ९९ ॥ निम्बपत्रवचा-
हिंशुसीर्षिलवणसर्षपैः । धूपनं स्याद्
व्रणे देयं कृमिकंडूरुजापहम् ॥ १०० ॥

मटर, निसोतके पत्ते और कोशाम्रके भीतरकी
गुठली इनको एकत्र पीसकर व्रणमें भरनेसे व्रण भर
जाता है । अथवा तुलसी आदि औषधियोंके रसको
परिसेचन करनेसे या लशुनको पीसकर लेप कर-
नेसे किवा नीमके पत्ते, वच, हींग, घी, सैधान-
मक और सरसों इन सबको एकत्र पीसकर इनका
घूप देनेसे व्रणकी खुजली, कृमि और पीडा गान्त
होती है ॥ ९९ ॥ १०० ॥

रोमाकीर्णो व्रणो यस्तु न सम्यगुप-
रोहति । क्षुरकर्त्तरिसदंशैस्तस्य
रोमाणि निर्हरेत् ॥ १०१ ॥

जो व्रण अत्यन्त रोमोंसे व्याप्त होनेके कारण
अच्छे प्रकारसे न भरे तो उसके ऊपरके रोमोंको
उत्तरे, कैंची अथवा अन्यान्यशस्त्रसे काटदेना
चाहिए या दातोसे काटदेना चाहिए ॥ १०१ ॥

रोमस्थाने यद्वा रोमव्रणशान्ते च
नो भवेत् । तत्र वैद्येन कर्त्तव्यो रोम-
सञ्चयनो विधिः ॥ १०२ ॥

जो व्रणके आरोग्य होनेपर रोमोंके स्थानमें रोग
उत्पन्न न हो तो यहाँ वैद्यको रोमोंको उत्पन्न क-
रनेवाली चिकित्सा करनी चाहिए ॥ १०२ ॥

कपोतवङ्कालशुनं सशीर्षं ससैन्धवं
चित्रकमूलमिश्रम् । तदश्वलेण्डूस्य
रसेन पिष्टं व्रणे प्रलेपो भवने हि रो-
म्णाम् ॥ १०३ ॥

ब्राह्मी, लशुन, अगर, सैधानमक और चीतेकी
जड़ इन सबको एकत्र घोड़ेकी लीदके रसमें पीस-
कर व्रणपर लेप करनेसे व्रणके स्थानमें रोम उत्पन्न
होजाते हैं ॥ १०३ ॥

ये क्लेदपाकसृतिगन्धवंतो व्रणाश्चि-
रोत्थाः सरुजः सशोथाः । प्रयान्ति

ते गुग्गुलुमिश्रितेन पीतेन शान्तिं
त्रिफलारसेन ॥ १०४ ॥

जिस व्रणका पाक छेदयुक्त हो, व्रण स्रवता हो, दुर्गन्ध आती हो और बहुत कालसे उत्पन्न हुआ हो पीडायुक्त और जिसमें सूजनहो उममें त्रिफलेके काथमें गूगल डालकर पान करे ॥ १०४ ॥

पटोलनिम्बासनसारधात्रीपथ्याक्षनि
रूहमहसुखेषु । नरः पिवेद्गुग्गुलु-
ना विसर्पविस्फोटदुष्टव्रणशान्तिमि-
च्छन् ॥ १०५ ॥

पटोलपत्र, नीमके भीतर की छाल, विजयसार, आमले, हरड और वहेडा इनका काथ बनाकर उसमें गूगल डालकर नित्य प्रातःकाल पीनेसे विसर्प, विस्फोटक तथा दुष्टव्रण शान्त हो जाते हैं ॥ १०५ ॥

मनःशिला समञ्जिष्ठा सलाक्षार-
जनीद्रव्यम् । प्रलेपात्सवृतः क्षौद्रस्त्व-
ग्बिशुद्धिकरः परः ॥ १०६ ॥

मैनशिल, मजीठ, लाख, हलदी और दारुहलदी इनको एकत्र पीसकर शहव और घीमें भिलाकर प्रलेप करनेसे त्वचा शुद्ध होती है और व्रणका स्थान फिर शरीरके वर्णके समान होजाता है ॥ १०६ ॥

पूतिगन्धिविवर्णाश्च महास्त्रावान्म-
हारुजः । व्रणानशुद्धान्विज्ञाय शोध-
नैस्समुपाचरेत् ॥ १०७ ॥

जिनमें अत्यन्त दुर्गन्ध आती हो, जिनका रंग घुरा हो, जिनमेंसे पानी, राध आदि अत्यन्त स्रवता हो और जिनमें अत्यन्त पीडा हो ऐसे व्रणोको अशुद्ध समझकर शोधन करे ॥ १०७ ॥

व्रणरोगियोंका भोजन ।

जीर्णशाल्योदनं स्निग्धमल्पमुष्णं द्र-
वोत्तरम् । भुञ्जानो जाङ्गलैर्मांसैः
शीघ्रं व्रणमपोहति ॥ १०८ ॥

व्रणरोगियोंको स्निग्ध, अल्प, उष्ण और पतला ऐसा पुराने शालिचावलोका भात, जांगलप्रदेशके जीवोके

मांसरसके साथ भक्षण करनेके लिये देव इममें शीघ्र ही व्रण नष्ट होजाते हैं ॥ १०८ ॥

तंडुलीयकजोवन्तीसुनिषण्णकवा-
स्तुकैः । कालमूलकवार्त्ताकुपटोलैः
कारवेल्कैः ॥ १०९ ॥ सदाडिमैः सा-
मलकैर्वृतभृष्टैः ससैन्धवैः । अन्यैरेवं
गुणैर्वापि मुद्गादीनां रसेन वा ॥ ११० ॥

चौलाई, जीवती, गिरिआरी, बथुआ, नाडीका शाक, मूली, बैंगन, परवर, करंला, अनार और आमले इनको घीमें भूनकर संधानमक डालकर इनके साथ अथवा इनके समान अन्यगुणोंवाली वस्तुओके साथ या मूंग आदिके रसके साथ भोजन करना चाहिये ॥ १०९ ॥ ११० ॥

अपथ्य ।

अम्लं दधि च शाकश्च मांसमानूप-
मौदकम् । क्षीरं गुरूणि चान्नानि व्रणे
च परिवर्जयेत् ॥ १११ ॥

खटाई, दही, शाक, अनूपदेश और जलचरजीवोका मांस, दूध और भारी अन्न इन सबको व्रणरोगी त्याग देवे ॥ १११ ॥

दिवानिद्राविहीनश्च निर्वातगृहसे-
वकः । व्रणी वैद्यवशे तिष्ठन् शीघ्रं
व्रणमपोहति ॥ ११२ ॥

जो व्रणरोगी दिनमें शयन नहीं करता और वात-रहित स्थानमें निवास करता है तथा वैद्यके वचनोंके अनुसार चलता है तो उसका व्रण शीघ्र ही नष्ट होजाता है ॥ ११२ ॥

व्रणे श्वयथुरायासात् स च रागश्च
जगरात् । तौ च रुक् च दिवास्वा-
पात्ते च मृत्युश्च मैथुनात् ॥ ११३ ॥


व्रणरोगमें परिश्रम करनेसे सूजन आती है, रात्रिमें जागनेसे लाली बढ़ती है, दिनमें सोनेसे सूजन, लाली तथा पीडा ये तीनों होती है और मैथुन करनेसे सूजन, लाली, पीडा और मृत्यु ये चारों होती हैं ॥ ११३ ॥

यश्छिनायाममज्ञानाद्यश्च पक्वमुपे-
क्षते । श्वपचाविव मन्तव्यो तावनि-
श्चितकारिणौ ॥ ११४ ॥

जो मूर्खवैद्य अज्ञानसे अपक्व व्रणको पक्व समझ-
कर चीर देता है और जो पक्वकी उपेक्षा करता है अर्थात्
पक्वको कच्चा समझकर नहीं चीरता ऐसे वैद्यको
चाण्डालके समान समझना चाहिये ॥ ११४ ॥

इति श्रीवंगसेने भाषाटीकाया व्रणशोथाधिकारः
समाप्तः ॥ ५० ॥

अथ आगन्तुकव्रणरोगाधिकारः ।



नानाधारामुखैः शस्त्रैर्नानास्थाननि-
पातितैः । भवन्ति नानाकृतयो
व्रणास्तांस्तान् निबोध मे ॥ १ ॥

अनेक प्रकारकी धारवाले और अनेक प्रकारके
मुखवाले शस्त्र, शरीरके अनेक स्थानोंमें लग जानेसे
नानाप्रकारकी आकृतिवाले व्रण होते हैं, उनके
लक्षणोंको कहते हैं ॥ १ ॥

आगन्तुकव्रणकी संख्या
और संप्राप्ति ।

छिन्नं भिन्नं तथा विद्धं क्षतं पिच्चि-
तमेव च । घृष्टमाहुस्तथा षष्ठं तेषां
वक्ष्यामि लक्षणम् ॥ २ ॥

छिन्न, भिन्न, विद्ध, क्षत, पिच्चित और घृष्ट, ऐसे
ये आगन्तुक व्रण छ. प्रकारके हैं अब इनके लक्षण
कहता हूँ ॥ २ ॥

छिन्नके लक्षण ।

तिर्यक् छिन्नऋजुर्वापि व्रणो यस्त्वा-
यतो भवेत् । गात्रस्य पाटनं तद्धि
छिन्नमित्यभिधीयते ॥ ३ ॥

जो व्रण तिरछा, सीधा अथवा लम्बा हो और
शरीरका एक अंग कटकर गिरजाय या नहीं गिरे
उसको छिन्न व्रण कहते हैं ॥ ३ ॥

भिन्नके लक्षण ।

शक्तिक्रान्तेपुखद्गाग्रविषाणैराशयो
हतः । यत्किञ्चित् प्रस्रवेत्तद्धि भिन्न-
लक्षणमुच्यते ॥ ४ ॥

बर्छी, भाला, वाण, तलवारकी नोक और विषाण
(दांत सींग) इनसे जो कोठेमें आमाशयादियन्त्र
छिद्र जायें और उनमेंसे कुछ रुधिरनि कले तो
उसको भिन्नव्रण कहते हैं ॥ ४ ॥

कोष्ठके लक्षण ।

स्थानान्यामान्निपकानां मूत्रस्य रुधि-
रस्य च । हृदुण्डुकः फुफ्फुसश्च कोष्ठ
इत्यभिधीयते ॥ ५ ॥

आमाशय, अग्न्याशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रक्ता-
शय, यकृत, प्लीहा, हृदय, मलाशय और गठिया
इन स्थानोंको कोष्ठ कहते हैं ॥ ५ ॥

इन भेदोंके लक्षण ।

तस्मिन् भिन्ने रक्तपूर्णं ज्वरो दाहश्च
जायते । मूत्रमार्गशुदास्येभ्यो रक्तं
घ्राणाच्च गच्छति ॥ ६ ॥ मूर्च्छाश्वास-
तृषाध्मानमभक्तच्छन्द एव च ।
विण्मूत्रवातसङ्गश्च स्वेदास्त्रादोऽक्षि-
रक्तता ॥ ७ ॥ लोहगन्धित्वमास्य-
स्य गात्रदौर्गन्ध्यमेव च । हृच्छूलं पार्श्व-
योश्चापि विशेषं चात्र मे शृणु ॥ ८ ॥

उस कोष्ठमें गन्धसे छिद्र होनेसे रुधिर भरजाता
है तब ज्वर और दाह होती है. मूत्रमार्ग, गुदा, मुख
और नाकके द्वारा रुधिर निकलता है, मूर्च्छा, श्वास,
तृषा, अफारा, अन्नमें अरुचि, मल, मूत्र और अधो-
वायुका अवरोध, पसीना अधिक आना, नेत्रोंमें
लाली, मुखमें लोहके समान गंध, शरीरमें दुर्गन्ध
आती है, हृदय और पसलियोंमें झल ये सब लक्षण
होते हैं, अब कुछ विशेष लक्षण कहते हैं ॥ ६ ॥
॥ ७ ॥ ८ ॥

आमाशयस्थितरक्तके लक्षण ।

अमाशयस्थे रुधिरं रुधिरं छर्दयत्य-
पि । आध्मानमतिमानश्च शूलश्च भृ-
शदारुणम् ॥ ९ ॥

आमाशयमें रुधिरके भरजानेसे रुधिरकी वमन होती है, पेट फुलजाता है और दारुण शूल होता है ॥ ९ ॥

पक्काशयस्थके लक्षण ।

पक्काशयगते चापि रुजागौरवमेव
च । अधःकाये विशेषेण शीतता च
भवेदिह ॥ १० ॥

पक्काशयमें रुधिरके भरजानेसे अत्यंत पीडा, शरीरमें भारीपन और कमरसे नीचेतक शरीर शीतल होता है ॥ १० ॥

विद्धव्रणके लक्षण ।

सूक्ष्मास्यशल्यभिहतं यदङ्गत्वाश-
यं विना । उच्छ्रितं निर्गतं वा तद्वि-
द्धमिति निर्दिशेत् ॥ ११ ॥

आग्योंको छोड़कर अन्य अंगोंमें बहुत वारीक नोकवाले शल्य अर्थात् सुई, कांटे आदि छिदजानेसे वह अंग ऊपरको ऊंचा हो जाता है, वह शल्य निकल जाय अथवा ऊपरको आजाय तब उसको विद्धव्रण कहते हैं ॥ ११ ॥

क्षतके लक्षण ।

नातिछिन्नं नातिभिन्नमुभयोर्लक्षणा-
न्वितम् । विषमं व्रणमङ्गेषु ततक्षतं
तु विनिर्दिशेत् ॥ १२ ॥

जो व्रण न अत्यंत छिदा हो और न अत्यन्त कटा हो, एवं दोनों लक्षणोंसे युक्त हो तथा शरीरमें टेढा भेडा हो उसको क्षत कहते हैं ॥ १२ ॥

पिच्छितके लक्षण ।

प्रहारपीडनाभ्याश्च यदङ्गं पृथुतां ग-
तम् । सास्थि तत्पिच्छितं विद्यान्म-
ज्जारक्तपरिणुतम् ॥ १३ ॥

जो अंग हाडसहित चोटके लगनेसे अथवा किसी भारी वोजके ऊपर पडनेसे पिचजाय, उसमें मज्जा और रक्त भरा हो तो उसको पिच्छितव्रण कहते हैं ॥ १३ ॥

घृष्टके लक्षण ।

वर्षणादभिघाताद्वा यदङ्गं विगतत्व-
चः । ऊषासावान्वितं तसु घृष्टमि-
त्यभिधीयते ॥ १४ ॥

वर्षणसे, अभिघातसे अथवा अन्यकारणोंसे जिस अंगकी त्वचा छिल जाय और अग्निके समान गरम रुधिर निकले उसको घृष्टव्रण कहते हैं ॥ १४ ॥

शल्यसहितव्रणके लक्षण ।

श्यावं सशोफं पिटिकाचितं च मुहु-
र्मुहुः शोणितवाहिनं । मृदून्नतं
बुद्बुदतुल्यमांसं व्रणं सशल्यं सरुजं
वदन्ति ॥ १५ ॥

जो व्रण कृष्ण रक्तवर्ण मिश्रित हो, सूजनसहित हो जिसमें छोटी २ फुसी अधिक हो, उनमेंसे बारंबार रुधिर बहे, गरम और बबूलेके समान ऊपरको उठा हुआ जिसका मांस हो उस व्रणको शल्ययुक्त जानना अर्थात् उस व्रणमें कांटा आदि शल्य रहगया जानना चाहिये ॥ १५ ॥

कोष्ठभेदके लक्षण ।

त्वचोऽतीत्य शिरादीनि भित्वा वा
परिहत्य वा । कोष्ठे प्रतिष्ठितं शल्यं
कुर्व्याद्रक्तानुपद्रवान् ॥ १६ ॥

जो कांटा आदि शल्य सातो त्वचाओंको भेदकर और नसोंको भी भेदकर अथवा नसोंको छोड़ कर कोष्ठमें जाकर स्थित हो वह पूर्वोक्त भिन्न कोष्ठके घोर उपद्रवोंको करते हैं ॥ १६ ॥

असाध्यके लक्षण ।

तत्रान्तर्लोहितं पांडु शीतपादकरा-
ननम् । शीतोच्छ्वासं रक्तनेत्रमानद्धश्च
विवर्जयेत् ॥ १७ ॥

जिसके शल्ययुक्त कोष्ठमें रुधिर हो और वह रोगी पीला पडजाय, तथा उसके पांव, हाथ, मुख और

श्वसोच्छ्वास ठंडा हो, नेत्र लाल होगये हो और पेटमें अफारा बहुत आगया हो, वह कौष्ठभेद असाध्य जानना ॥ १७ ॥

मर्मोंमें चोट लगनेसे जो व्रण होता है उसका सामान्य लक्षण ।

भ्रमः प्रलापः पतनं प्रमोहो विचेष्टनं ग्लानिरथोष्णता च । स्रस्ताङ्गतामूर्च्छनमूर्ध्ववातस्तीव्रा रुजो वातकृताश्च तास्ताः ॥ १८ ॥ मांसोदकाभं रुधिरश्च गच्छेत्सर्वेन्द्रियार्थो परमस्तथैव । दशार्द्धसंख्येष्वथवा क्षतेषु सामान्यतो मर्मसु लिङ्गमुक्तम् ॥ १९ ॥

भ्रम, वृथा वक्त्रवाद, वार २ जमीनपर लोटना, इन्द्रिय और मनमें मोह होना, हाथ पावोंका फैलना, ग्लानि, गरमी, शरीरके अगोमें गिथिलता, मूर्च्छा, श्वासका ऊपरको जाना, वातकी तीव्र वेदना, खुलेहुए मांसके जलके समान रक्त का बहना, सम्पूर्ण इन्द्रियोंका व्याकुल होना ये सब लक्षण मासादि पांच मर्मोंके विद्व होनेसे होते हैं ॥ १८ ॥ १९ ॥

मर्मरहितशिराविद्वके लक्षण ।

सुरेन्द्रगोपप्रतिमं प्रभूतं रक्तं स्रवेत्तक्षयजश्च वायुः । करोति रोगान् विविधान्यथोक्ताञ्छिरासु विद्वस्वथवा क्षतासु ॥ २० ॥

शिराके विधजानेसे अथवा शिरामें वातके होजानेसे बीगवहुटीके समान अरुणवर्ण और बहुतसा रुधिर बहता है तथा रुधिरके क्षय होनेसे वायु कुपित होकर अनेक प्रकारके रोगोंको उत्पन्न करता है ये लक्षण मर्मरहित शिराविद्वके जानने ॥ २० ॥

स्नायुविद्वके लक्षण ।

कौब्जं शरीरावयवावसादः क्रियास्वशक्तिस्तुमुलारुजश्च । चिराद्गणो रोहति यस्य चापि तं स्नायुविद्वं पुरुषं व्यवस्येत ॥ २१ ॥

कुब्जता (कुबडापन), शरीरमें ग्लानियुक्त पीडा, कान करनेमें सामर्थ्यका न होना, बहुत वेदना हो और जो व्रण बहुतकालमें भरे उसको स्नायुविद्व जानना ॥ २१ ॥

सन्धिविद्वके लक्षण ।

शोथाभिवृद्धिस्तुमुलारुजश्च बलक्षयः सर्वत एव शोथः । क्षतेषु सन्धिष्वचलाचलेषु स्यात्सर्वकर्मापरमश्च लिङ्गम् ॥ २२ ॥

जिस मनुष्यकी संधि चल अथवा निश्चल वेधीगई हो, उसके सूजन बढ़ती जाय, अत्यंत भयंकर वेदना हो, बलका नाश, संधियोंके जोड़ोंमें हडफूटन और सूजन तथा संधियोंके कार्यमें असमर्थता ये लक्षण संधिविद्वके जानने ॥ २२ ॥

अस्थिविद्वके लक्षण ।

घोरा रुजो यस्य निशादिनेषु सर्वास्ववस्थासु च नैति शान्तिम् । भिषग्विपश्चिद्विदितार्थसूत्रस्तमस्थिविद्वं पुरुषं व्यवस्येत ॥ २३ ॥

जिस मनुष्यके निरंतर रात दिन अत्यंत भयंकर वेदना हो, किसी समय चैन नहीं पड़े, उसकी अस्थि विद्वहुई जाननी ॥ २३ ॥

मर्मविद्वके लक्षण ।

यथा स्वमेतानि विभावयेच्च लिङ्गानि मर्मस्वभिताडितेषु ।

मर्मस्थानोंमें चोटके लगनेसे पूर्वोक्त लक्षण जानने और शब्दसे भ्रम प्रलापादि जो सामान्य लक्षण है उनको भी जानना ।

मांसमर्मव्रणके लक्षण ।

पांडुर्विवर्णः स्पृशितं न वेत्ति यो मांसमर्माण्यभिताडितः स्यात् ॥ २४ ॥

जो मनुष्य मांसमर्मके स्थानमें विद्व होता है उसका शरीर पाण्डुवर्ण, विवर्णता और उस स्थानमें स्पर्शज्ञान नहीं होता ॥ २४ ॥

व्रणायामके लक्षण ।

मर्माश्रितं व्रणं प्राप्य ह्यनिलः सर्व-
देहगः । वैगैरायामयेदेहं व्रणायामन्तु
तत्थजेत् ॥ २५ ॥

सम्पूर्ण शरीरगतवायु मर्माश्रित व्रणोमे प्राप्त होकर वेगपूर्वक शरीरको फैला देता है इसको व्रणायाम कहते हैं यह असाध्य है ॥ २५ ॥

सर्वव्रणके लक्षण ।

विसर्पः पक्षाघातश्च शिरःस्तंभोऽप-
तानकः । मोहोन्मादव्रणरुजो ज्वर-
स्तृष्णा हनुग्रहः ॥ २६ ॥ कास-
श्छर्दिंरतीसारो हिक्का श्वासः सवेप-
थुः । षोडशोपद्रवाः प्रोक्ता व्रणानां
व्रणाचिन्तकैः ॥ २७ ॥

विसर्प, पक्षाघात, शिरका जकडना, अपतानक, मोह, उन्माद, ज्वर, व्रणमे पीडा, तृपा, हनुग्रह, खॉसी, वमन, अतीसार, हिचकी, श्वास और कम्प ये व्रणरोगमे १६ उपद्रव होत हैं ऐसा व्रणको जानने-वाले वैद्योने कहा है ॥ २६ ॥ २७ ॥

आगन्तुकव्रणकी चिकित्सा ।

बुद्ध्वागन्तुव्रणं वैद्यो घृतक्षौद्रसमन्वि-
ता । शान्ति क्रिया प्रयोक्तव्या रक्तपि-
तोष्मनाशिनी ॥ २८ ॥

वैद्य आगन्तुक व्रण समझकर उसको रक्तपित्त और दाहको नष्ट करनेवाली शीतल औषधियोंमे गृह्य और घी मिलाकर प्रयोग करे ॥ २८ ॥

कुष्ठे सद्योव्रणे युञ्जादूर्ध्वं चाधश्च
शोधनम् । लङ्घनश्च बलं ज्ञात्वा भो-
जनं चास्त्रमोक्षणम् ॥ २९ ॥

तत्कालके व्रणके कुपित होनेपर रोगीके बलाबल-को विचार कर वमन, विरेचन, लघन, भोजन और रक्तमोक्षण ये सब उपचार करने चाहिये ॥ २९ ॥

वृष्टे विदालिते चैव सुतरामिष्यते
विधिः । यतो ह्यल्पं स्रवत्यस्त्रं पाक-
रत्ननाशु जायते ॥ ३० ॥

विसनेसे अथवा विदलित होनेसे जो व्रण हुआ हो उसमेसे रुधिर बहुत कम निकलता है इस कारण पित्तका कोप होकर वह शीघ्र ही पकजाता है अतएव उसमे उपर्युक्त विधि करनी चाहिये ॥ ३० ॥

छिन्ने भिन्ने तथा विद्धे क्षते वासृग-
तिस्रवेत् । रक्तक्षयात्तत्र रुजः करो-
ति पवनो भृशम् ॥ ३१ ॥

अंगोके छिन्न भिन्न विद्ध होजानेपर और घावोंमेसे रुधिरको निकलनेलगे इसप्रकार रुधिरके क्षय होनेसे वायु अत्यन्त पीडाको उत्पन्न करता है ॥ ३१ ॥

स्नेहपानपरीषेकलेपस्वेदोपनाहनम् ।
कुर्वीत स्नेहवस्तिश्च मारुतघ्नौषधैः
शृतैः ॥ ३२ ॥

जो ऐसा व्रण हो, तो उसमे परिसेचन, स्नेहपान, लेप, स्वेद, उपनाहकर्म और वातनाशक औषधियोंके साथके द्वारा स्नेहवस्ति प्रदान करे ॥ ३२ ॥

छिन्ने भिन्ने तथा विद्धे क्षते सद्यो
भिषग्वरः । पट्टसूत्रेण संवेष्ट्य व्रणं
व्रणविशारदः ॥ ३३ ॥ सुहुर्मुहुस्तथा
दुःखं न प्राप्नोति भिषग्वरः । तथा
कर्म प्रकुर्वीत सर्वतश्च सुखप्रदम् ॥ ३४ ॥

छिन्न, भिन्न और विद्धव्रणोंको तत्काल रेगमसे बांधे, इसप्रकार करनेसे रोगी वारंवार दुःखको प्राप्त नहीं होता तथा सम्पूर्ण सुखकारक कर्म करने चाहिये ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

अथवा दीप्यलवणं पोटल्या स्वेद-
धेन्मुहुः । संतप्तया तप्तलोहपात्रसं-
योगतः क्रमात् । दुष्टं रक्तं स्थितं चा-
पि शृङ्गचलाब्वादिभिर्हरेत् ॥ ३५ ॥

अथवा उस व्रणको अजवायन और लवणकी पोटली बनाकर लोहेके पात्रमे पोटलीको रखकर उसको संतप्त करके वारंवार उससे स्वेद देवे अर्थात् सेके अथवा संचित हुए दूषित रुधिरको तोम्बी या शिगीमे निकलवावे ॥ ३५ ॥

सद्यःक्षते व्रणे वैद्यः सशूले परिषेच-
येत् । यष्टीमधुकमिश्रेण नातिशी-
तेन सर्पिषा ॥ ३६ ॥

तत्कालके उत्पन्न हुए व्रणमें जो शूल हो तो मुलै-
ठीका चूर्ण मिले हुये मन्दोष्ण घृतसे परिसेचन
करे ॥ ३६ ॥

कषायमधुराः शीताः क्रियाः सर्वा-
स्तु योजयेत् ॥ ३७ ॥

तथा कपली, मधुर और शीतल ऐसे औषधियोंके
द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३७ ॥

आमाशयस्थे रुधिरं विदध्याद्भ्रमं
नरः । तस्मिन् पक्वाशयस्थे तु प्रकु-
र्वीत विरेचनम् ॥ ३८ ॥

जो व्रणका रुधिर आमाशयमें स्थित हो तो वमन
करावे और जो पक्वाशयमें स्थित हो तो विरेचन विधि
करानी चाहिये ॥ ३८ ॥

क्वाथो वंशत्वगेरण्डश्वदंष्ट्राऽश्मभि-
दा कृतः । हिंशुसैन्धवसंयुक्तः कोष्ठ-
स्थं न्नावयेदसृक् ॥ ३९ ॥

वाँसकी छाल, अण्डकी जड़, गोखरू और पापा-
णभेद इनका क्वाथ बनाकर उसमें हींग और सैधा-
मक डालकर पान करनेसे कोष्ठस्थ रुधिर निर्गत
होजाता है ॥ ३९ ॥

खड्गादिच्छिन्नगात्रस्य तत्काले परि-
तो व्रणः । गाङ्गेरुकीमूलरसैः सद्यः
स्याद्गतवेदनः ॥ ४० ॥

तलवार आदिके घावमें तत्काल गगेरुकी जड़के
रसको भगवे तो उसकी वेदना दूर होजाती है ४० ॥

यवकोलकुलित्थानां निःस्नेहेन रसेन
च । भुञ्जीतांत्रं यवागूं वा पिबेत्सै-
न्धवसंयुताम् ॥ ४१ ॥

आगन्तुकव्रणवाले मनुष्योंको जौ, वेर और कुलथी
इनके रसको स्नेहरहित भातके साथ भोजन करे
अथवा सैधानमक डालकर यवागू पान करे ॥ ४१ ॥

अपामार्गस्य संसिक्तं पत्रोत्थेन रसेन
वा । सद्योव्रणेपु रक्तन्तु प्रवृत्तं परि-
तिष्ठति ॥ ४२ ॥

तत्कालके हुये घावमें चिरचिटेके पत्तोंके स्वर-
सको सेचन करनेसे प्रवृत्त हुआ रुधिर स्थिर हो
जाता है ॥ ४२ ॥

कर्पूरपूरितं बद्धं सवृतं सम्प्ररोहति ।
सद्यः शस्त्रक्षतं तत्तु व्यथापाकविव-
र्जितः ॥ ४३ ॥

तत्काल गन्धसे उत्पन्न हुए और पीडा तथा पाक-
रहित ऐसे व्रणमें घीमें कपूर मिलाकर बाँधनेसे व्रण-
में अंकुर उत्पन्न होकर व्रण भरने लगता है ॥ ४३ ॥

शुनो जिह्वाकृतश्चूर्णः सद्यःक्षतविरा-
हणः । चुक्रतेलं क्षते विद्धे रोपणं
परमं मतम् ॥ ४४ ॥

कुत्तेकी जिह्वाको सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर
व्रणपर डालनेसे तत्काल भरने लगजाता है । तथा
चुक्रतेल अथवा चूकेका तेल क्षत और विद्ध
व्रणोंमें व्रणको भरनेके लिये उत्तम है ॥ ४४ ॥

मानुषशिरःकपालं तदस्थि लेपनं तु
नूत्रेण । रोपणभिदं क्षतानां योगश-
तैरप्यसाध्यानाम् ॥ ४५ ॥

मनुष्यके शिरकी खोपडीकी हड्डीको लेकर गो-
मूत्रके साथ पीसकर लेप करनेसे जो घाव सैकड़ों
औषधियोंसे आरोग्य नहीं होसकते वे तत्काल भर-
जाते हैं ॥ ४५ ॥

स्नेहपानं परीसेकं स्नेहलेपोपनाहनम् ।
स्नेहवस्ति च कुर्वति वातघ्नौषधसा-
धिताम् ॥ ४६ ॥ इति साप्ताहिकः
प्रोक्तः सद्योव्रणहितो विधिः । स-
प्ताहात्परतो कुट्यर्पाच्छारीरव्रणवत्
क्रियाम् ॥ ४७ ॥

सद्योव्रणमें स्नेहपान, परिसेचन, स्नेहमिश्रित
लेप, उपनाहकर्म और वातनाशक औषधियोंके
क्वाथके द्वारा स्नेहवस्ति ये सब क्रियाये सात दिन-
तक करनी चाहियें । सात दिनोंके पश्चात् शारीरव्र-
णके समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

गुग्गुलुवटिका ।

त्रिफलाचूर्णसंयुक्तो गुग्गुलुर्वटकी-
कृतः । निर्यन्त्रणो विबन्धघ्नो व्रणशो-
धनरोपणः ॥ ४८ ॥

गूगलूको त्रिफलेके चूर्णमें मिलाकर गोली बनाकर
भक्षण करनेसे व्रणकी पीडा, विबन्ध और व्रण नष्ट
होता है तथा व्रण शुद्ध होकर भरने लगता है ॥ ४८ ॥

अमृतागुग्गुलु ।

अमृतापटोलमूलत्रिफलात्रिकटुकृमि-
घ्नानाम् । समभागानां चूर्णं सर्व-
समो गुग्गुलोर्भागः ॥ ४९ ॥ प्रति-
वासरमेकैकां खादेदक्षप्रमाणां गुटि-
काम् । जेतुं व्रणान्वातासृग्गुल्मोदर-
श्वयथुरोगादीन् ॥ ५० ॥

गिलोय, परवलकी जड़, त्रिफला, त्रिकुटा, वाय-
विडंग यह प्रत्येक औषधि समान भाग और सबकी
बराबर गूगलू लेवे । सबको एकत्र मिलाकर कूट
पीसकर एक जीव करके एक एक तोलेकी गोली
बनावे । प्रतिदिन एक गोली खाय । यह गूगलू—सर्व
प्रकारके व्रण, वातरक्त, गुल्म, उदररोग और
शोथादिरोगोको नष्ट करता है ॥ ४९ ॥ ५० ॥

जात्यादिघृत ।

जातीनिम्बपटोलपत्रकटुकादावीनि-
शासारिवा । मञ्जिष्ठाऽभयसिक्थतु-
त्थमधुकैर्नक्ताह्वीजैः समैः ॥ स-
र्पिः सिद्धमनेन सूक्ष्मवदना मर्माश्रि-
ताः स्राविणो गम्भीराः सरुजो
व्रणाः सग्तिकाः शुद्धयन्ति रोह-
न्ति च ॥ ५१ ॥

चमेलीके पत्ते, नीमके पत्ते, परवल, कुटकी,
दारुहलदी, हलदी, सारिवा, मजीठ, खस, मोम,
नीलाथोया, मुलैठी और करंजके बीज सबको समान
भाग लेकर कलक बनावे, इस कलकसे पकायेहुए
घृतको जात्यादिघृत कहते हैं । इस घृतको लगानेसे
छोटे मुखवाले, मर्मांशे उत्पन्न हुए, स्राववाले, गम्भीर
वेदनायुक्त और अगोमे गति करनेवाले व्रण शुद्ध
होजाते हैं और भर जाते हैं ॥ ५१ ॥

वृद्धवैद्योपदेशेन पारम्पर्योपदेशतः ।
जातीघृते तु संसिद्धे क्षेपव्यं सि-
क्थकं बुधैः ॥ ५२ ॥

यद्यपि ऊपरके पाठमें मोमका प्रथमही धीमें डालना
कहा है तथापि वृद्धवैद्योंके उपदेशसे और गुरुओंकी
परंपरासे ऐसा सिद्ध होता है कि, जात्यादिघृतके पक-
नेके पश्चात् उसमें मोम डालना चाहिये ॥ ५२ ॥

तित्ताद्यघृत ।

तित्तासिक्थनिशायष्टीनक्ताह्वाफल-
पल्लवैः । पटोलमालतीनिम्बपत्रैर्व्रण्यं
शृतं घृतम् ॥ ५३ ॥

कुटकी, मोम, हलदी, मुलैठी, करंजके पत्ते और
फल, परवल, चमेलीके पत्ते और नीमके पत्ते इनके
कलकके द्वारा घृतको पकावे । यह घृत-व्रणको अत्यंत
हितकारी है ॥ ५३ ॥

जातिकाद्यतैल ।

जातिनिम्बपटोलानां नक्तमालस्य
पल्लवाः । सिक्थं समधुकं कुष्ठं द्वे
निशे कटुरोहिणी ॥ ५४ ॥ मञ्जिष्ठा
पद्मकं लोभ्रमभयानीलमुत्पलम् । तु-
त्थकं शारिवाबीजं नक्तमालस्य दा-
पयेत् ॥ ५५ ॥ एतानि समभागानि
पिष्ट्वा तैलं विषाचयेत् । विषव्रणे समु-
त्पन्ने स्फोटिके कच्छुरोगके ॥ ५६ ॥
दद्भुवीसर्पारोगेषु कीटदुष्टेषु सर्वथा ।
सद्यः शस्त्रप्रहारेषु दग्धविद्धेषु चैव
हि ॥ ५७ ॥ नखदन्तक्षते देहे दुष्ट-
मांसापकर्षणे । प्रोक्षणार्थमिदं तैलं
हितं शोधनरोपणम् ॥ ५८ ॥

चमेलीके पत्ते, नीमके पत्ते, परवलके पत्ते,
करंजके पत्ते, मोम, मुलैठी, कूट, हलदी, दारु-
हलदी, कुटकी, मजीठ, पद्माख, लोव, हरड,
नीलकमल, तूतिया, शारिवा और करंजके
बीज इन सबको समान भाग लेकर कलक
बनाकर इस कलकसे बुद्धिमान् वैद्य विवि-

पूर्वक तिलके तैलको पकावे तो यह जात्यादि तैल सिद्ध होता है । यह तैल-विपजनित्रण, विस्फोटक, कच्छु (खुजली दाद), विसर्प, विर्षले कीडेका काटा हुआ व्रण, तत्काल शस्त्रके प्रहारसे उत्पन्न हुआ व्रण, दग्धव्रण, विद्धव्रण, नखका घाव और दाँतका घाव इन सबमें हितकारी है तथा इनके ऊपर यह तैल लगानेसे व्रण भरने लगता है । व्रणमेंसे दूषित मांस निकालनेके लिये यह तैल परमोत्तम है । यह तैल व्रणको भरने और शुद्ध करनेके लिये अत्यंत उपयोगी है ॥ ५४-५८ ॥

विपरीतमल्लतैल ।

शरपुष्पा-लाङ्गलीचित्रकरामठरसोन-सिन्धुवरैः । सविषामयैः समांशैः कटुतैलं साधितं विधिना ॥ ५९ ॥
विपरीतमल्लसंज्ञं तैलं दुष्टव्रणं तथा नाडीम् । बहुभेषजैरसाध्यामपथ्यभोक्तुश्च निस्तुदति ॥ ६० ॥

सरफाँका, कलिहारी, चीता, हींग, लशुन, सिम्हाल, अतीस और कूठ इनके कल्कके द्वारा सरसोंके तैलको विधिपूर्वक पकावे, इसको विपरीतमल्लतैल कहते हैं । इस तैलको लगानेसे दुष्टव्रण नष्ट होजाना है, जो अनेक औषधियोंसे भी नष्ट न हो ऐसा असाध्य नाडीव्रण भी इससे दूर हो जाता है । इसपर यदि अपथ्य सेवन किया जाय तो भी यह उक्त गुणोंको करता है ॥ ५९ ॥ ६० ॥

कुठारतैल ।

कुठारकात्पलशतं काथयेदुल्वणेऽम्भसि । तेन पादांयशेषेण तैलप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ६१ ॥ कल्कैः कुठारापामार्गप्रोष्टिकामाक्षिकास्तु च । एतत्तैलं कुठारस्य शोधनं व्रणरोपणम् । नाडीपु परमाभ्यङ्गो निजास्वागन्तुकेषु च ॥ ६२ ॥

कुठारेकी छाल १०० पल लेकर ३५६ पल जलमें पकावे, जब पकते पकते जल चौथाई भाग बाकी रह जाय तब उतारकर छान लेवे । फिर इस काथमें

तिलका तैल एक प्रस्थ और कुठारेकी छाल, चिरचिटा, प्रोष्टिक मञ्जली और मक्खी इनका कल्क डालकर विधिपूर्वक तैलको पकावे । यह कुठारका तैल-व्रणको शुद्ध करके भर देता है । इसकी मालिस-नाडीव्रण, साधारण और आगन्तुकव्रणमें अत्यंत हितकारी है ॥ ६१ ॥ ६२ ॥

दूर्वाद्यतैल ।

दूर्वास्वरससंसिद्धं तैलं कम्पिल्लकेन वा । दार्वीत्वचश्च कल्केन प्रधानं व्रणरोपणम् ॥ ६३ ॥

दूर्वके स्वरस और कवीलेके कल्कके द्वारा तैलको पकाकर अथवा दारुहलदीके कल्कके द्वारा तैलको सिद्ध करके प्रयोग करे तो बहुत शीघ्र व्रण भर जाता है ॥ ६३ ॥

नूलतैल ।

बलाशिखरिकामूलं पिष्ट्वा तैलं विपाचयेत् । नूलतैलमिति ख्यातमभ्यङ्गान्नूलकान्वितम् ॥ ६४ ॥ ये व्रणास्त्रिवृताः केचिच्छरीरागन्तवः सदा । रोपणार्थं भिषक्तेषामिदं तैलं प्रयोजयेत् ॥ ६५ ॥

खिरैटी और चिरचिटेकी जड़को एकत्र पीस कर तैलमें डालकर पकावे । इस तैलको नूलतैल कहते हैं । छिन्न भिन्न विवृत शारीरिक और आगन्तुक प्रायः समस्त व्रणोंको रोपण करनेके लिये यह उत्तम औषधि है ॥ ६४ ॥ ६५ ॥

वटिकागुग्गुलु ।

अमृतागुग्गुलुः श्रेष्ठो हितं तैलश्च वज्रकम् ॥ ६६ ॥ विडङ्गत्रिफलाव्योषचूर्णं गुग्गुलुना समम् । सर्पिषा वटकीं कृत्वा खादिद्रा हितभोजनम् । दुष्टव्रणापचीमेहकुष्ठनाडीविशोधनः ॥ ६७ ॥

इस आगन्तुकव्रणमें अमृतागुग्गुलु और वज्रक तैल भी अत्यन्त हितकारी है । वायविडंग, त्रिफला और त्रिकुटा इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण बना लेवे और सर्व चूर्णके बराबर गूगल लेवे । सबक

घीके साथ एकत्र खरल कर गोली बनालेवे । प्रति-
दिन एक गोली खाय और हितकारक भोजन करे
तो दुष्ट व्रण, अपच, प्रमेह कोढ और नाडीव्रण शुद्ध
हो जाता है ॥ ६६ ॥ ६७ ॥

सप्तविंशतिकगुग्गुलु ।

त्रिकटु-त्रिफलामुस्तविडङ्गामृतचित्र-
कम् । पटोलपिप्पलीमूलं हपुषा सुर-
दारु च ॥ ६८ ॥ तुम्बुरुपुष्करं चव्यं
विशाला रजनीद्वयम् । विडं सौवर्च-
लं क्षारं सैन्धवं गजपिप्पली ॥ ६९ ॥
यावत्येतानि सर्वाणि तावद्दिगु-
णगुग्गुलुः । कोलप्रमाणां गुटिकां
भक्षयेन्मधुना सह ॥ ७० ॥ कासं श्वा-
सं तथा शोथमर्शांसि च भगन्दर-
म् । हृच्छूलं पार्श्वशूलञ्च कुक्षिवस्तिगु-
दे रुजम् ॥ ७१ ॥ अश्मरीमूत्रकृच्छ्र-
ञ्च ह्यन्त्रवृद्धिं तथा कृमीन् ॥ ७२ ॥
चिरज्वरोपसृष्टानां क्षयोपहतचेतसा-
म् । आनाहञ्च तथोन्मादं कुष्ठान्य-
ष्टोदराणि च ॥ ७३ ॥ नाडीदुष्टव्रणा-
न् सर्वान् प्रमेहाञ्छीपदं तथा । सप्त-
विंशतिको नाम्ना गुग्गुलुः प्रथितो
महान् । धन्वन्तरिकृतो ह्येषः सर्व-
रोगनिषूदनः ॥ ७४ ॥

त्रिकुटा, त्रिफला, नागरमोथा, वायविडंग, गिलोय,
चीता, पटोलपत्र, पीपलामूल, हाऊरेर, देवदारु,
तुम्बुरु, पोहकरमूल, चव्य, इन्द्रायण, हलदी, दारु-
हलदी, विडनमक जवारार, काला नमक,
सैन्धानमक, गजपीपलथे सब समान भाग और रावसे
दुगुना शुद्ध गुग्गुलु लेवे । सबको एकत्र कूट पीसकर
कपडछान कर फिर शुद्ध गुग्गुलु छिलका रहित
मिलाय इतना कूटे जो एक जीव होजाय अनन्तर
एक एक आठ २ माशेकी गोलियां बनालेवे । प्रतिदिन
एक गोली अहतके साथ भक्षण करे यह गोली खाँसी
श्वास, सूजन, ववासीर, भगन्दर, हृदयशूल, पार्श्वशूल,
कुक्षिशूल, वस्तिशूल, गुदजशूल, अश्मरी, मूत्रकृच्छ्र,
अन्त्रवृद्धि, कृमि, जीर्णज्वर, क्षय, आनाह, उन्माद,
कोढ, आठो प्रकारके उदररोग, नाडीव्रण समस्त हुए

व्रण, प्रमेह और श्लीपद इन सब रोगोंको यह सप्त-
विंशति नामक गुग्गुलु अवश्य नष्ट कर देता है । यह
गुग्गुलु स्वयं धन्वन्तरि भगवानने कहा है और सर्व
रोगोंको नष्ट करनेवाला है ॥ ६८-७४ ॥

अथाग्निदग्धव्रणनिदान ।

अब अग्निसे दग्ध हुए व्रणके
लक्षण कहते हैं ।

तत्र स्निग्धं रूक्षं वाग्भित्त्य द्रव्यमग्नि-
र्दहति । अग्निस्सन्तप्तो हि स्नेहः सू-
क्ष्ममार्गानुसारित्वात् त्वगादींस्तु प्र-
विश्याशु दहति । तस्मात् स्नेहदग्धेऽ-
धिका रुजो भवन्ति । तत्र प्लुष्टं दु-
र्दग्धं सम्यग्दग्धमतिदग्धमिति चतु-
र्विधं भवत्यग्निदग्धम् । तत्र विवर्ण-
मात्रं पुष्यते तत्प्लुष्टं यत्रोत्तिष्ठन्ति
स्फोटास्तीव्र-दाह-वेदनाश्चिरादेवोप-
शाम्यन्ति तद्दुर्दग्धम् । सम्यग्दग्ध-
मवगाढं तालवर्णं सुस्थितं पूर्वलक्ष-
णसंयुक्तं च । अतिदग्धे त्वद्मांसाव-
लम्बनं गात्रविश्लेषणं शिरास्नायु-
सन्ध्यस्थि-व्यापादनमतिगात्रवेदना
ज्वर-दाह-पिपासामूर्च्छाश्वासोपद्रवा
भवन्ति । व्रणाश्चास्य चिरेणोपरोह-
न्ति । उपरूढा विवर्णा भवन्ति । इति
व्रणः प्लुष्टादिभेदेन वह्निदग्धश्चतुर्विधो
भवति ।

स्निग्ध और रूक्ष द्रव्योंके आश्रित होनेसे देहके
अंगोंको अग्नि दहन करती है । अग्निसे सत्तप्त हुआ
स्नेह सूक्ष्ममार्गी होनेसे त्वचादिकोंमें प्राप्त होकर
शीघ्र ही जलाता है इस कारण स्नेहदग्धमें अत्यन्त
पाडा होती है । प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यग्दग्ध और
अतिदग्ध इसप्रकार अग्निदग्ध चार प्रकारका है ।
जो जलेनका स्थान विवर्ण और ऊपरको फूलासा हो
उसको प्लुष्ट कहते हैं । जिसमें तीव्र फोडे, दाह, वेदना
हो और बहुत देरमें जो शान्त हो उसको दुर्दग्ध कहते
हैं । जो अत्यन्त दग्ध हो तथा पक्क ताडफलके समान
जिसका वर्ण हो, न अत्यन्त ऊँचा हो और न अत्यन्त

नीचा हो और पूर्वोक्त लक्षणयुक्त हो उसको सम्यग्दग्ध जानना । जिसमें त्वचा और मांसका अवलम्बन, गात्रका विश्लेषण, शिरा, स्नायु, सन्धि और अस्थि इनमें अत्यंत वेदना हो, तथा ड्वर, दाह, तृषा, मूर्च्छा और श्वास इत्यादि उपद्रव हो उसको अतिदग्ध कहते हैं । यह त्रण बहुत दिनोंमें भरता है और भरनेपर भी अर्थात् आरोग्य होनेपर भी उसका स्थान विवर्ण रहता है । इस प्रकार प्लुष्टादिभेदोंसे अग्निदग्ध चार प्रकारका होता है ।

अग्निदग्धकी चिकित्सा ।

प्लुष्टस्याग्निप्रतपनं कुर्व्यादुष्णं तथौषधम् । शीतामुष्णाश्च दुर्दग्धे क्रियां कुर्व्यात्ततः पुनः ॥ ७५ ॥ घृतलेपनसेकांस्तु शीतानेवास्य कारयेत् ॥ ७६ ॥

प्लुष्टदग्धमें जो अंग जलगाया हो उसको अग्निसे तपावे और गरम औषधियोंसे सेके और दुर्दग्धमें शीतल और उष्ण दोनों क्रियाये करनी चाहिये किन्तु दुर्दग्धके त्रणमें घृतादिका लेप करे तो शीतल ही करना चाहिये ॥ ७५ ॥ ७६ ॥

अतिदग्धे तु शीर्णानि मांसानुद्धृत्य शीतलाम् । क्रियां कुर्व्याच्च तां काले शालितण्डुलचन्दनैः । तिन्दुक्यास्त्वक् कषायैर्वा घृतमिश्रैः प्रलेपयेत् ७७ ॥

अतिदग्धमें वैद्य त्रणमेंके गले हुए मांसको निकाल कर शीतल क्रिया प्रयोग करे, पश्चात् शालिचावल और चन्दनको पीसकर लगा देवे अथवा तेदूकी छालको पीसकर घृत मिलाकर अथवा तेदूके काथमें घृत डाल कर प्रलेप करे ॥ ७७ ॥

सम्यग्दग्धे तुगाक्षीरीप्लक्षचन्दनगैरिकैः । सामृतैः सर्पिषा युक्तैरालेपं कारयेद्विषक ॥ ७८ ॥

सम्यग्दग्धमें वैद्य वंगलोचन, पाखर, चन्दन, गेरू और गिलोय इन सबको एकत्र पीसकर घृत मिलाकर प्रलेप करे ॥ ७८ ॥

पथ्यादिलेप ।

पथ्या-कर्दम-जीरकमधुसिकथकसर्ज-मिश्रितं लेपात् । गव्यं घृतमपहरति पावकजनितं त्रणं सद्यः ॥ ७९ ॥

हरड, कीच, जीरा, मोम और राल इन सबको एकत्र पीसकर गायका घृत मिलाकर प्रलेप करनेसे अग्निसे जला हुआ त्रण शांत होता है ॥ ७९ ॥

अन्तर्धूमकुठारको दहनजं लेपात्रि-हन्ति त्रणं ह्यश्वत्थस्य च शुष्कवल्कलकृतं चूर्णं तथा शुण्डनात् ॥ अभ्यङ्गाद्विनिहन्ति तैलमखिलं गण्डूपदैः साधितं पिष्टा शाल्मलितूलकैर्जलगता लेपात्तथा वालुका ॥ ८० ॥

कुठारेकी छालको पुटपाककी विधिसे जलाकर उसका लेप करनेसे अग्निदग्धत्रण नष्ट होता है । अथवा पीपलकी सूखी छालका चूर्ण करके अग्निसे दग्ध हुए त्रण पर घुरकनेसे त्रण शमन होता है । या केंचुओंको तेलमें पकाकर उस तेलको लगानेसे अग्निदग्ध त्रण नष्ट होता है । अथवा सेमलकी रुईको या वालू(रेत) को जलमें पीसकर लेप करनेसे अग्निदग्धत्रण शांत होता है ॥ ८० ॥

दग्धयदभस्मचूर्णं तिलतैलाक्तं प्रलेपनादचिरात् । हरति शिखिदाहदग्धं भूयोऽभ्यङ्गाद्त्रणश्चाशु ॥ ८१ ॥

जौकी भस्म करके तिलके तेलमें मिलाकर प्रलेप करनेसे शीघ्र ही अग्निदग्धत्रण शांत होता है ॥ ८१ ॥

पित्तविद्राधिवीसर्पशमनं लेपनादिकम् । अग्निदग्धे त्रणे सम्यक् प्रयुञ्जीत विचक्षणः ॥ ८२ ॥

अग्निदग्धत्रणमें पित्तविद्राधि और विसर्पोंके समस्त लेपादिक प्रयोग करने चाहिये ॥ ८२ ॥

शुभ्रा पुरातनी दध्रा वारिणा परिपेषिता । लेपनं तैलदग्धस्य विस्फोटव्याधिनाशनम् ॥ ८३ ॥

पुरानी फटकरी अथवा पुराने चूनेको जलमे पीस कर दहीमें मिलाकर लेप करनेसे तेलसे जला हुआ विस्फोटक रोग दूर होता है ॥ ८३ ॥

अक्षिजेषु तु कर्तव्यमिदमाश्रोतनं
हितम् । शैलुत्वक् त्रिफलादावीं का-
थो रोचनया युतः ॥ स्तुह्यर्कक्षीरसि-
क्तेऽक्षिण गव्यं सर्पिर्निषेचयेत् ॥ ८४ ॥

अक्षिदग्धमें आश्रोतनविधि हितकारी है । लिसोडेकी छाल, त्रिफला और दारुहलदी इनके काथमे गोरोचन डालकर नेत्रोंको सींचे, पश्चात् गायके घृतसे सींचे । इस प्रकार करनेसे थूहरके दूध और आकके दूधसे विकृत हुए नेत्र एवं अग्निदग्ध नेत्र आरोग्य होते हैं अथवा उपर्युक्त थूहर आदिके दूधसे दग्ध हुए नेत्रोंको गायके घृतसे सींचे ॥ ८४ ॥

मधूच्छिष्टाद्यघृत ।

मधूच्छिष्टं समधुकं लोध्रं सर्जरसं त-
था । मञ्जिष्ठां चन्दनं मूर्वा पिष्ट्वा स-
र्पिर्विपाचयेत् । सर्वेषामग्निदग्धानां
व्रणरोपणमुत्तमम् ॥ ८५ ॥

मोम, मुलेठी, लोध, राल, मजीठ, चन्दन और मूर्वा इन सबको एकत्र पीसकर घृतमे पकाकर सर्व-प्रकारके अग्निदग्धव्रणोपर लगायाना चाहिये, इससे बहुत शीघ्र व्रण भरजाते हैं ॥ ८५ ॥

लांगलीघृत ।

उभे हरिद्रे मञ्जिष्ठा मधुकं लोध्रकटु-
फलम् । कम्पिल्लकमुभे मेदे लाङ्गली-
मूलमेव च ॥ ८६ ॥ पिप्पली त्रिफला
चैव निम्बपत्रञ्च कार्षिकम् । कपिला-
या घृतप्रस्थं पचेत्तद्विशुणं पयः ॥ ८७ ॥
पलद्वयञ्च सिक्थस्य सिद्धपूते च
दापयेत् । लाङ्गलीकं घृतं नाम व्रणानां
रोपणं परम् ॥ ८८ ॥ अग्निदग्धे वि-
सर्पे च कीटलूताव्रणेषु च । चिरोत्थेषु
च दुष्टेषु नाडीमर्माश्रितेषु च ॥ ८९ ॥

हलदी, दारुहलदी, मजीठ, मुलेठी, लोध, काय-फल, कवीला, मेदा, महामेदा, कलिहारीकी जड़, पीपल, त्रिफला और नीमके पत्ते यह प्रत्येक औषधि एक एक तोला लेकर कल्क बनावे । गायका घी ६४ तोले और गायका दूध १२८ तोले लेवे । सबको मिलाकर यथाविधिसे घृतको सिद्ध करे । सिद्ध होनेपर ८ तोले मोम मिलादेनेसे यह लांगलीक नाम घृत सिद्ध होता है । यह घृत-व्रणोंको भरनेके लिये अत्यन्त उत्तम है । तथा अग्निदग्ध व्रण, विसर्प, कीट, लूता-दिजनित व्रण बहुत दिनोंका पुराना नाडीव्रण, मर्माश्रितव्रण और दुष्टव्रण इन सबको नष्ट करता है ॥ ८६-८९ ॥

पटोलीतैल ।

सिद्धं कषायकल्काभ्यां पटोल्याः
कटुतैलकम् । दग्धव्रणरुजास्त्रावदाह-
विस्फोटनाशनम् ॥ ९० ॥

कडवे परवल्लोंके काथ और कल्कके द्वारा कडवे तेलको पकावे । यह तेल-अग्निदग्ध व्रण, पीडा, स्राव, दाह और विस्फोटक इन सबको दूर करता है ॥ ९० ॥

चन्दनाद्यतैल ।

चन्दनं वटशुङ्गाश्च मञ्जिष्ठा मधुकं
तथा । प्रपौण्डरीकं मूर्वा च पतंगं
धानकी तथा ॥ ९१ ॥ एतैस्तैलं वि-
पक्तव्यं सर्पिःक्षीरसमायुतम् । अ-
ग्निदग्धे व्रणे श्रेष्ठं तत्क्षणाद्रोपणं प-
रम् ॥ ९२ ॥

चन्दन, वडके अंकुर, मजीठ, मुलेठी, पुंडरिया, मूर्वा, पतंग और धायके फूल इनके कल्कके द्वारा घृत और दूध मिलाकर तेलको पकावे । इस तेलको लगानेसे अग्निदग्ध व्रण तत्काल भरजाता है ॥ ९१ ॥ ९२ ॥

अपथ्य ।

अम्लं दधि च शाकञ्च मांसमानूपवा-
रिजम् । क्षीरं गुरुणि चान्नानि व्र-
णिनः परिवर्जयेत् ॥ ९३ ॥

खटाई, दही, शाक, अनूपदेश और जलचरजी-वोंका मांस, दूध और भारी अन्नपान इन सबको व्रणरोगी त्याग देवे ॥ ९३ ॥

व्रणग्रन्थिकी चिकित्सा ।

वातास्रमकृतं दुष्टं सशोथं ग्रथितं
व्रणम् । कुर्व्यात्सदाहं कंद्वाढ्यं व्रण-
ग्रन्थिरिति स्मृतः ॥ क्षारसूत्रं प्रयु-
ञ्जीत दुष्टव्रणहरं विधिम् ॥ ९४ ॥

वात तथा रुधिर यह दोनों-व्रणको स्रावरहित, दुष्ट
सूजनसे युक्त, ग्रंथिसहित, दाह और खुजलीसंयुक्त
करते हैं, ऐसे व्रणको व्रणग्रन्थि कहते हैं । इस व्रण-
ग्रन्थिमें क्षारसूत्र और दुष्ट व्रणोक्त चिकित्सा करनी
चाहिए ॥ ९४ ॥

कम्पिल्लकतैल ।

कम्पिल्लकं विडङ्गानि त्वचं दाव्या-
स्तथैव च । पिष्ट्वा तैलं विपक्तव्यं व्रण-
ग्रन्थिहरं परम् ॥ ९५ ॥

कवीला, चायविडंग और दारुहलदीकी छाल इनको
पीसकर तेलमें पकावे । यह तेल व्रणकी ग्रन्थिको
दूर करता है ॥ ९५ ॥

इति श्रीवङ्गसेने भापाटीकायां सद्योव्रणाग्नि-
दग्धव्रणनिदानचिकित्साधिकारः
समाप्तः ॥ ५१ ॥

अथ भग्नरोगाधिकार ।

पतनपीडनव्यालविषदग्धप्रभृतिभिर-
भिघातविशेषैरनेकविधिभिस्संध्य-
स्थनां भग्नमुपदिशन्तीत्यत आह-

पतन (वृक्षादिक या मंदिर आदिसे गिरना),
पीडन (दयना), व्याल (सर्पादिका डसना) अथवा
विषादिका प्रयोग और अग्निदग्ध इत्यादि तथा अनेक
प्रकारके अभिघातोंसे विविध प्रकारका सन्धि और
अस्थिभग्न होता है, उसको कहते हैं ।

भग्नं समासाद्विविधं हुताशकाण्डे
च सन्धाविह तत्र सन्धौ । उत्पिष्ट-
विश्लिष्टविवर्तितश्च तिर्य्यगगतं क्षि-
तमधश्च षट्कम् ॥ १ ॥

कांडभग्न और संधिभग्न इन भेदोंसे भग्नरोग दो
प्रकारका है । संधियोंकी अस्थिके एक भागमें जो
भग्न हुआ हो उसको कांडभग्न कहते हैं और दो
अस्थियोंकी सन्धियोंमें जो भग्न हो उसको संधिभग्न
कहते हैं । संधिभग्न-उत्पिष्ट, विश्लिष्ट, विवर्तित,
तिर्य्यगगत, क्षिप्त और अधोगत ऐसे छः प्रकारका
है ॥ १ ॥

सन्धिभग्नके सामान्यलक्षण ।

प्रसारणाकुञ्चनवर्तनोग्रा रुक् स्पर्श-
विद्वेषणमेतदुक्तम् । सामान्यतः स-
न्धिगतस्य लिङ्गमुत्पिष्टसन्धेः श्वय-
थुः समन्तात् । विशेषतो रात्रिभवा
रुजा च विश्लिष्टयेतौ च रुजा च
नित्यम् ॥ २ ॥

फैलाते समय, सिकोडते समय और इधर उधर
करते समय घोर पीडा हो, स्पर्श भी न सहा जाय
यह संधिभग्नके सामान्य लक्षण जानने । उत्पिष्टमें
संधिके चारोंओर सूजन और रात्रिमें अधिक पीडा
होती है । विश्लिष्टमें संधिमें सूजन और रात दिन
नित्य पीडा होती है ॥ २ ॥

विवर्तिते पार्श्वरुजश्च तीव्रास्तिर्य्य-
गते तीव्ररुजो भवन्ति ॥ क्षिप्तोत्ति
शूलं विषमारुगस्थनोः क्षिप्ते त्वधोरु-
ग्विघटश्च सन्धेः ॥ ३ ॥

विवर्तितमें पसलियोंमें तीव्र वेदना होती है । तिर्य्य-
गतमें तीव्र पीडा होती है और एक हड्डी संधिस्थानको
छोडकर तिरछी होजाती है । विक्षिप्तमें संधिका हाड
ऊपरको सरकजाता है और बहुत वेदना होती है
तथा हड्डियोंमें कम या ज्यादा पीडा होती है और
अधःक्षिप्त अर्थात् अधोगतमें संधिकी हड्डी नाँचेको
सरकजाती है और पीडा होती है एवं संधिकी अस्थि
परस्पर घिसती रहती है ॥ ३ ॥

काण्डभग्नके सामान्य लक्षण ।

काण्डे त्वतः कर्कटकाऽश्वकर्णाविचू-
र्णितं पिञ्चितमस्थिछल्लिका । काण्डे

च भ्रं ह्यतिपातितं च मज्जागतञ्च
स्फुटितञ्च वक्रम् ॥ ४ ॥ छिन्नं द्विधा
द्वादशधा च काण्डे स्रस्तांगता शोफ-
रुजातिवृद्धिः । सम्पीड्यमानो भव-
तीह शब्दः स्पर्शासहः स्पन्दनतोद-
शूलाः ॥ ५ ॥ सर्वास्ववस्थासु न
शर्मलाभो भ्रमस्य काण्डे खलु चिह्न-
मेतत् । भ्रमन्तु काण्डे बहुधा प्रया-
ति समासतो नामभिरेव तुल्यम् ॥ ६ ॥

कांडभ्रम, - कर्कटक, अश्वकर्ण, विचूर्णित, पिञ्चित, अस्थिछल्लिका, कांडभ्रम, अतिपातित, मज्जागत, स्फुटित, वक्र, अल्पछिन्न और बहुछिन्न इन भेदोंसे बारह प्रकारका है । अंगोंमें शिथिलता, सृजन, अत्यन्तवेदना दूटनेके स्थानमें दवानेकासा शब्द हो, स्पर्श सहा न जाय, फडके, सुईचुभानेकेसी पीडा हो, शूल हो, कहीं भी किसी समय किसी प्रकारसे चैन नहीं पड़े ये कांडभ्रमके सामान्य लक्षण जानने । कांडशब्दसे नलक, कपाल, वलय, तरुण और रुचक ये पांच प्रकारके आकारसे हाडोंके नाम हैं । अब विशेष लक्षण कहते हैं-जो हाड दोनो ओरसे दबकर बीचमें ऊँचा हो उसको कर्कट, घोड़ेके कानके समान जो हाड बाहर निकल आवे उसे अश्वकर्ण, जो हाड भीतरही चूर्णित होगया हो और हाथके दवानेसे चुरचुर शब्द करे उसको त्रिचूर्णित, जो हाड पिचकर पिचडा हो जाय उसको पिञ्चित, जिसे हाडका कोई भाग छालके समान अलग दीखने लगे उसको अस्थिछि-ल्लिका, जिस हाडकी नली दूटजाय उसको कांडभ्रम, जो हाड सब दूट जाय उसको अतिपातित, जिस हाडके दूटनेसे उसके भीतरकी मींग बाहर निकल आवे उसको मज्जागत, जो हाड दूटके फूट २ होजाय उसको स्फुटित, जो हाड टेढ़ा होजाय उसको वक्र, जिस हाडके दूटनेसे बहुत छोटे २ टुकड़े हो जाय उसको छिन्न और जो हाड एक ओरसे दूटकर दूसरी ओरसे निकले उसको दूसरे प्रकारका छिन्न कहते हैं । यह काण्डभ्रमके सक्षेपसे नाम और लक्षण कहे हैं । इनके अतिरिक्त जिस २ स्थानमें जैसी २ आकृ-तिका भ्रम हो उसको उसी २ आकृतिके अनुसार नाम रख कर कहना चाहिये ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥

कष्टसाध्य ।

अल्पाशिनोऽनात्मवतो जन्तोर्वाता-
त्मकस्य च । उपद्रवैर्वा जुष्टस्य भ्रं
कृच्छ्रेण सिध्यति ॥ ७ ॥

जो मनुष्य अल्प अहार करते हैं, जिनकी इन्द्रिये वशमें नहीं है अर्थात् जो कुपथ्य सेवन करते हैं, जिनकी वातप्रकृति है और जो ज्वरादि उपद्रव-संयुक्त है, ऐसे मनुष्योंके भ्रमरोग अत्यंत कष्टसाध्य होता है ॥ ७ ॥

असाध्यलक्षण ।

भिन्नं कपालं कट्यान्तु संधिमुक्तं
तथा च्युतम् । जघनं प्रतिपिष्टञ्च व-
र्जयेत्तु विचक्षणः ॥ ८ ॥

जिस मनुष्यका कपालनामक हाड किसी स्थानका दूटगया हो, कमरका हाड दूट गया हो, संधिके निकटकी हड्डी दूटगई हो, अथवा नीचेको सरक गई हो और जंघाकी हड्डी चूर्णित हांगई हो ऐसे रोगीको वैद्य त्याग देवे ॥ ८ ॥

असंश्लिष्टं कपालञ्च ललाटे चूर्णितञ्च
यत् । भ्रं स्तनान्तरे शंखे पृष्ठे मूर्ध्नि
तु वर्जयेत् ॥ ९ ॥

जो कपालके स्थानका हाड दूटकर जोड़ने योग्य न रहे, ललाटकी हड्डी चूर चूर होजाय तथा स्तनके मध्यकी एव पीठकी तथा कनपटीकी अथवा मस्तककी हड्डी दूटजाय उसकी वैद्यचिकित्सा न करे ९ ॥

सम्यक् संहितमप्यस्थि हुनिक्षेपनि-
बन्धनात् । संक्षोभाद्वापि यद्गच्छेद्वि-
क्रियां तच्च वर्जयेत् ॥ १० ॥

जो हड्डी अच्छे प्रकारसे भी जोड़ दी गई हो, कितु उसको अच्छे प्रकारसे न रक्खे तथा अच्छे प्रकारसे न बांधे उसमें किसी प्रकारके क्षोभके हो जानेसे अथवा किसीका धक्का लगजानेसे फिर जैसीकी तैसी होजाय तो उसको वैद्य त्याग देवे अर्थात् वह असाध्य है ॥ १० ॥

तरुणास्थीनि नम्यन्ते भिद्यन्ते नल-
कानि च । कपालानि विभज्यन्ते,
स्फुटन्ति रुचकानि च ॥ ११ ॥

तरुण हड्डी नव जाती है, नलकहड्डी चिर जाती है, फपालसंज्ञक अस्थि टूटकर फूट २ होजाती है और रुचक नामक अस्थि टूटकर टुक टुक होजाती है ॥ ११ ॥

भग्नरोगकी चिकित्सा ।

आदौ भग्नं विदित्वा तु सेचयेच्छी-
तलांबुना । पङ्केनालेपनं कार्यं बन्धनं
च कुशान्वितम् ॥ १२ ॥

भग्नरोगमें प्रथम जीतल जलसे सेचन करे, कौचका लेप करे और कुशासे बांधे ॥ १२ ॥

अवनामितमुत्रम्येदुन्नतं चावपीड-
येत् । आङ्गेदतिक्षिप्तमधोगतञ्चोपरि-
वर्त्तयेत् ॥ १३ ॥

जो हड्डी नव जाय उसको ऊपरको उठाकर ऊंचा करे, जो ऊंची होजाय उसको दबाकर नीचेको बैठावे, दूर हट जाय उसको धोरेको लावे और जो हड्डी नीचे होजाय उसको ऊपरको चढावे ॥ १३ ॥

पलाशोदुम्बराश्वत्थ-कदम्बनिचुलत्व-
चः । वंशसर्जार्जुनानाञ्च कुशार्थमुप-
संहरेत् ॥ पटस्योपरि बध्नीयात्त गाढं
शिथिलं न वा ॥ १४ ॥

ढाक, गूलर, पीपल, कदम्ब, वेंत, वांस, राल और अर्जुनवृक्षकी छाल—इनको एकत्र पीसकर इनकी पट्टी बाँधे, बंधनके ऊपर जो बंधन बाँधे उसको न तो अत्यन्त सख्त और न अत्यन्त शिथिल बाँधे ॥ १४ ॥

सप्तसप्तदिनाच्छतिं घर्मेमुच्येत्यहात्-
व्यहात् । समाने पञ्चपञ्चाहाद्भग्नं
दोषवशेन च ॥ १५ ॥

जीतकालमें सात दिनमें पट्टी खोलनी चाहिए । उष्णकालमें तीन तीन दिनमें और साधारण ऋतुमें पांच पांच दिनमें पट्टी खोलनी चाहिए अथवा यथा-
दोषानुसार समयको विचारकर पट्टी खोलनी चाहिए ॥ १५ ॥

आलेपनार्थं मज्जिष्ठा मधुकं चाम्बुपे-
षितम् । शतधौतघृतोन्मिश्रं शालि-
पिष्टञ्च लेपनम् ॥ १६ ॥

मजीठ और मुलैठीको जलमें पीसकर भग्नके ऊपर प्रलेप करे । अथवा शालिचावलोंको पीसकर उसमें सौ बार धुला हुआ घी मिलाकर भग्नपर प्रलेप करे ॥ १६ ॥

सद्योऽभिघातजनिता रागरुजः श्व-
यथवः प्रशाम्यन्ति । पिष्टकलवणा-
लेपादम्लीकाफलरसाभ्यां वा ॥ १७ ॥

इमलीके फलोके रसमें लवण पीसकर भग्नपर लेप करनेसे तत्काल अभिघातजनित पीडा, लाली और सूजन दूर होती है तथा हड्डी जुटजाती है ॥ १७ ॥

न्यग्रोधादिकषायं तु सुशीतं परिषे-
चने । पञ्चमूलीविपक्वन्तु क्षीरं दद्या-
त्सवेदने ॥ १८ ॥

न्यग्रोधादिगणकी औषधियोका काथ बनाकर शीतल करके भग्नपर सेचन करे । और जो भग्नमें व्यथा हो तो पंचमूलका काथ बनाकर उसमें दूध डाल कर उससे सेचन करे अथवा दूधमें पंचमूलकी औषधियोंको पकाकर उससे सेचन करे ॥ १८ ॥

सुखोष्णमवचार्य्यं वा चुक्रतैलं वि-
जानता । अविदाहिभिरत्रैश्च पौष्टि-
कैः समुपाचरेत् ॥ १९ ॥

अथवा विचारकर चूकेके तेलका सुहाता २ सेचन करे तथा जो भग्न दाहकारक नहीं है उनकी पुष्टिस भग्नके ऊपर बाँधनी चाहिए ॥ १९ ॥

ग्लानिर्हि निहिता तस्य सन्धिविश्ले-
ष्मकारिका ॥ २० ॥ मांसं मांसरसक्षी-
रं सर्पिर्यूषः सतीनजः । बृहणं चान्न-
पानञ्च देयं भग्न्याय जानता ॥ २१ ॥

सन्धियोंके भिन्न २ होनेसे रोगीके ग्लानि अवश्य होजाती है इस कारण उस रोगीको वैद्य अच्छे प्रकारसे विचार कर मांस, मांसरस (सोरुआ), दूध, घी, मटरका यूप और धातुओको पुष्ट करनेवाले ऐसे भग्नपान देवे ॥ २० ॥ २१ ॥

गृष्टिक्षीरं ससर्पिष्कं मधुरौषधसाधि-
तम् । शीतलं लाक्षया युक्तं प्रातर्भयः
पिवेन्नरः ॥ २२ ॥

भयरोगी प्रथमवारकी व्याही हुई गायके दूधमे
वी डालकर जीवनीयगणकी औपधियोंके साथ पका-
कर पश्चात् उसमे लाखका रस डालकर शीतल करके
प्रातःकाल पीवे ॥ २२ ॥

सघृतेनास्थिसंहारं लाक्षागोधूममर्जु-
नम् । सन्धिसुक्तेऽस्थिसंभ्रमे पिवेत्
क्षीरेण वा पुनः ॥ २३ ॥

अस्थिसंहार (हडसंधारी), लाख, गेहूँ और अर्जु-
नकी छाल इनको एकत्र पीसकर वी मिलाकर दूधके
साथ पान करनेसे संविभय और अस्थिभय आरोग्य
होता है ॥ २३ ॥

चूर्णं पुरेण संयोज्य घृतेनार्जुनलाक्ष-
योः । भयं सन्धानमायाति लीढा-
क्षीरघृताशनः ॥ २४ ॥

गूगल अर्जुनकी छाल और लाख इनको एकत्र
पीसकर घृत मिलाकर सेवन करे और इसपर घृत
और दूधका भोजन करे तो दूटा हुआ हाड अवश्य
जुड जाता है ॥ २४ ॥

मूलं शृगालवित्रायाः पीत्वा मांस-
रसेन तु । चूर्णिकृत्य त्रिसप्ताहाद-
स्थिभयमपोहति ॥ २५ ॥

पृष्टिपर्णीकी जडको पीसकर मांसरसके साथ तीन
सप्ताह पर्यंत पान करनेसे अस्थिभयरोग दूर होता
है ॥ २५ ॥

आभाचूर्णं मधुयुतमस्थिभयने त्र्यहं
पिवेत् । पीत्वाप्यस्थि भवेत्सम्यग्बज्र-
सारनिभं दृढम् ॥ २६ ॥

ववूरकी फलिओका चूर्ण करके गहद मिलाकर
तीन दिनतक सेवन करनेसे अस्थि बज्रके समान
दृढ होजातीहै ॥ २६ ॥

अम्लिकाफलकल्कः सौवीरस्तैलवि-
भिश्रितः स्वेदात् । भयनाभिहत रुजा-
धैरथवौषधसाधितं श्वयथौ ॥ २७ ॥

इमलीके फलोंका कल्क, सौवीरनामक काँजी
और तेल इनको एकत्र मिलाकर स्नद देनेसे भयकी

और अभिघातकी पीडा दूर होती है । अथवा उक्त
औपधियोंके द्वारा तेलको पकाकर जोथरोगमे प्रयोग
करे ॥ २७ ॥

आभागुग्गुलु ।

आभाफलत्रिकव्योषैः सर्वैरैतैः समां-
शकैः । तुल्यगुग्गुलुना योज्यं भय-
सन्धिप्रसाधनम् ॥ २८ ॥

ववूरके बीज, सोठ, मिरच, पीपल, हरड,
वहेडा, आमला ये सब समान भाग और सबकी
वरावर गूगल लेवे । सबको एकत्र कूट पीसकर
गोली बनोव । इसको सेवन करनेसे दूटी हुई हड्डी
फिरसे जुड जाती है ॥ २८ ॥

लाक्षादिगुग्गुलु ।

लाक्षास्थिसंहतककुम्भोऽश्वगन्धाचूर्णी-
कृतो नागबला पुरश्च । सभयमु-
क्तास्थिरुजं निहन्यादङ्गानि कुर्यात्
कुलिशोपमानि ॥ २९ ॥

लाख, हडसंधारी, अर्जुनकी छाल, असगन्ध
और गगेरन इनको एकत्र कूट पीसकर गूगलमे मिला
कर सेवन करनेसे दूटा हुआ तथा हटा हुआ हाड
फिरसे जुडकर बज्रके समान होजाता है और पीडा
भी शमन होती है ॥ २९ ॥

गन्धतैल ।

रात्रौ रात्रौ तिलान् कृष्णान् वासये-
दस्थिरे जले । दिवा दिवा शोषयि-
त्वा गवां क्षीरेण भावयेत् ॥ ३० ॥
तृतीयं सप्तरात्रन्तु भावयेन्न्यधुरांबु-
ना । ततः क्षीरं पुनः पीतान् शुष्का-
न् सूक्ष्मान्विचूर्णयेत् ॥ ३१ ॥ काको-
ल्यादि श्वदंष्ट्राहं मञ्जिष्ठां शारिवां
तथा । कुष्ठं सर्जरसं मांसीं सुरदारु
सचन्दनम् ॥ ३२ ॥ शतपुष्पाश्च संचू-
र्ण्य तिलचूर्णेन योजयेत् । पीडनार्थं
तु कर्त्तव्यं सर्वगन्धैः शृतं पयः ॥ ३३ ॥

१ मूसलीको घृत लगा २ कर कूटे तो अच्छी गोली
बनती है ।

चतुर्गुणेन पयसा ततैलं पाचयेत् पुनः॥
 एलामंशुमतीपत्रं जविन्ती तगरं तथा
 ॥ ३४ ॥ लोध्रं प्रपौण्डरीकञ्च तथा
 कालानुसारिवाम् । शैलेयकं
 क्षीरशुक्लामनन्तां समधूलिकाम् ॥
 ॥ ३५ ॥ पिष्ट्वा शृङ्गाटकं चैव प्रागु-
 क्तान्योषधानि च । एभिर्वा विपचे-
 तैलं शास्त्रविन्दुहुनाग्निना ॥ ३६ ॥
 एतत्तैलं सदा पथ्यं भयानां सर्व-
 कर्मसु । आक्षेपके पक्षघाते तालु-
 शोषे तथादिते ॥ ३७ ॥ मन्या-
 स्तम्भे शिरोरोगे कर्णरोगे हनुग्रहे ।
 वाधिर्ये तिमिरे चैव ये च स्त्रीषु क्षयं
 गताः ॥ ३८ ॥ पथ्यं पाने तथाभ्यङ्गे
 नस्ये वस्तिषु भोजने । ग्रीवास्कन्धो-
 रसां द्रव्हिरेतेनैव प्रजायते ॥ ३९ ॥
 मुखञ्च पद्मप्रतिमं सल्लुगन्धिसमीरण-
 म् । गन्धतैलमिदं नाम्ना सर्ववात-
 विकारनुत् ॥ ४० ॥ राजार्हमेतत्क-
 र्तव्यं राज्ञामेव चिकित्सकैः । तिल-
 चूर्णसमं तत्र मिलितं चूर्णमिष्यते ४१ ॥

काले तिलोंको एक उत्तम वस्त्रकी पोटलीमें बांध कर प्रत्येक रात्रिमें नदी आदिके बहते जलमें डुबोकर रक्खे और प्रतिदिन धूपमें सुखाकर गायके दूधमें भावना देवे इस प्रकार सात दिनतक करे पश्चात् तीन दिनतक अथवा सात दिनतक मुलैठीके काथमें अथवा मधुर जलमें भावना देवे, फिर दूधमें भिगो कर सुखा लेवे, पश्चात् इनका चूर्ण कर ले, इस चूर्णमें काकोल्यादिगणकी औषधियां, गोखरू, मजीठ, शारि-
 वा, कूठ, राल, बालछड, देवदारु, चन्दन और सोफ इनको समान भाग ले और चूर्ण करके उक्ततिलोंके चूर्णमें मिलादेवे, फिर इस चूर्णको सम्पूर्ण सुगन्धित पदार्थोंसे मिश्रित किये हुये जलमें भिजोकर कोलूमे डाल कर तेल निकलवावे फिर चौगुने दूधमें तेलको पकावे पश्चात् इलायची, शालिपर्णी, तेजपात, जीवन्ती, तगर, लोध, पुण्डरिया, पीलाचन्दन, गारिवा, भूरिछरीला, सफेद विदारिकेद, अनन्तमूल,

मूर्वा, सिघाडे और पूर्वोक्त काकोल्यादिगणकी औषधियोंका कलक बना कर मंद २ अग्निसे तेलको दुबारा पकावे तो यह गन्धतैल सिद्ध होता है । यह तेल भ्रमरोगमें सदैव हितकारी है । इसको सब कर्मोंमें प्रयोग करना चाहिये । तथा आक्षेपक, पक्षाघात, तालुशोष, आर्दित, मन्यास्तम्भ, शिरोरोग, कर्णरोग, हनुग्रह, वाधिरता, तिमिर और अत्यन्त स्त्रीप्रसंग करनेसे उत्पन्न हुई क्षीणतामें यह तैल अत्यन्त उपकारी है । इसको पान, अभ्यंग (मालिस), नस्य, वस्तिकर्म और भोजनमें सेवन करना चाहिए । इस तेलको नित्य व्यवहार करनेसे ग्रीवा, स्कंध और छातीकी वृद्धि होती है । मुख कमलके समान सुगन्धित श्वासयुक्त हो जाता है । यह गन्धतैल सब प्रकारके वातरागोंको दूर करता है । वैद्योंको राजाओंके लिये यह गन्धतैल बनाना चाहिए । यहाँ तिलोंके चूर्णके बराबर सब औषधियोंका चूर्ण लेना चाहिए ॥ ३०-४१ ॥

अवस्थानुसार भ्रमकी साध्यतादि ।
 पूर्वे वयसि जातं हि भ्रमं सुकरमा-
 दिशेत् । अल्पदोषस्य जन्तोश्च काले
 तु समशीतले ॥ ४२ ॥

पहली अवस्थामे हुआ भ्रम साध्य है, अल्पदोषवाले मनुष्यके हुआ भ्रम साध्य है और समशीतोष्णकालमे हुआ भी भ्रम साध्य है ॥ ४२ ॥

प्रथमे वयसि त्वेवं मासात्सन्धिस्थिरो
 भवेत् । मध्यमे द्विगुणान् काला-
 दन्तिमे त्रिगुणान्तथा ॥ ४३ ॥

पहली अवस्थामे दृटे हुए हाड एक महीनेमें जुड जाता है, मध्यम अवस्थामे दृटा हुआ हाड दो महीनेमे दृढ हो जाता है और तीसरी अवस्थामे दृटा हुआ हाड तीन महीनेमे ठीक होता है ॥ ४३ ॥

नैति पाकं यथा भ्रमं तथा यत्नेन
 रक्षयेत् । पक्वं हि स्याच्छिरास्त्रायुं
 तद्वि कृच्छ्रेण सिध्यति ॥ ४४ ॥

जिससे कि, भ्रम पक न जाय इस प्रकार यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि भ्रम पक जानेपर वह शिरा और स्नायुओंको विगाड कर कष्ट-साध्य हो जाता है ॥ ४४ ॥

विशेष उपदेश ।

पतनादभिघाताद्वा शूनमङ्गं यदक्ष-
तम् । शीतान्सेकान्प्रदेहांश्च भिषक्त-
स्यावचारयेत् ॥ ४५ ॥ सत्रणस्य तु
भग्नस्य व्रणं सर्पिर्मधूत्तरैः । प्रतिसार्थं
कषायैश्च शोषं भग्नवदाचरेत् ॥ वात-
व्याधिविनिर्दिष्टान् स्त्रेहांस्तत्रापि
योजयेत् ॥ ४६ ॥

वृक्षादिकसे गिर जानेसे अथवा चोट आदिके लग
जानेसे जो अंग सूज जाय और उसमे घाव न हो तो
शीतल औषधियोंका परिसेचन और शीतल औषधि-
योंका प्रलेप प्रयोग करे। जो भग्नमे व्रण हो तो उसको
गहद और घी मिले काथासे धोवे, पश्चात् सब भग्न-
रोगोक्त चिकित्सा करे और इसमें वातरोगोक्त
तैल घृतादि भी प्रयोग करे ॥ ४५ ॥ ४६ ॥

अपथ्य ।

लवणं कटुकं क्षारमम्लमातपमैथु-
नम् । व्यायामं न च सेवेत भग्नो
रूक्षान्नमेव च ॥ ४७ ॥

लवण, वरपरे पदार्थ, खारी पदार्थ, खटाई, धूप,
मैथुन, व्यायाम (परिश्रमादिक) और रूक्ष अन्न
इन सबको भग्नरोगी त्याग देवे ॥ ४७ ॥

भग्नआरोग्यके लक्षण ।

भग्नसन्धिमनाविद्धमहीनाङ्गमनुल्ब-
णम् । सुखचेष्टाप्रचारश्च सम्यक् स-
न्धितमादिशेत् ॥ ४८ ॥

जब अंगोंको फैलते सकोडते समय कुछ भी कष्ट
न हो, कोई अवयव हीन अर्थात् टेढा या छोटा न
रह जाय, सूजन किंचित् भी न रहे और उठते बैठते
समय तथा फिरते चलते समय दुःख न हो और सब
चेष्टा सुखपूर्वक होने लगे तो भग्नको अच्छे प्रकारसे
आरोग्य हुआ जानना ॥ ४८ ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां भग्ननिदानाचिकि-
त्साधिकारः समाप्तः ॥ ५२ ॥

अथ नाडीव्रणरोगाधिकार ।



यः शोफमाममिति पक्वमुपेक्षतेऽज्ञो
यो वा व्रणं प्रचुरप्यमसाधुवृत्तः ।
अभ्यन्तरं प्रविशति प्रविदार्य
तस्य स्थानानि पूर्वविहितानि ततः
सपूयः ॥ १ ॥ तस्यातिमात्रगमना-
द्गतिरिष्यते तु नाडीव यद्ग्रहति तेन
मता तु नाडी ॥ २ ॥

जो मूर्ख मनुष्य पके हुए फोडोको कच्चा समझ कर
उसका मुख नहीं करता अथवा बहुत राधनाले पके
हुए व्रणको कच्चा जानकर उसको शोधन पदार्थोंसे शुद्ध
नहीं करता और अहित आहार विहार करता है उसके
वह वृद्धिको प्राप्त हुई राध त्वचा, मांस, गिरा, स्नायु
संधि, अस्थि, कोष्ठ तथा मर्मस्थानोंके छिद्रोंमे हो कर
उनके भीतर घुसजाती है भीतर बहुत दूर घुसजानेके
कारण वह राध सदैव बहा करती है, यह व्रण वांस
आदिकी नलीके समान राधको बहाता है इस कारण
इसको नाडीव्रण (नासूर) कहते हैं ॥ १ ॥ २ ॥

नाडीव्रणकी संख्यारूपसम्प्राप्ति ।

दोषैस्त्रिभिर्भवति सा पृथगेकशश्च
संमूर्च्छितैरपि च शल्यनिमित्ततो-
ऽन्या ॥ ३ ॥

अलग २ दोषोंसे तीन, सन्निपातसे चौथा और शल्य-
से पांचवां ऐसा नाडीव्रणरोग पांच प्रकारका है ॥ ३ ॥

वातजनाडीव्रणके लक्षण ।

तत्रानिलात्परुषसूक्ष्ममुखी सशूला
फेनानुविद्धमाधिकं स्रवति क्षपासु ।

वातजनाडीव्रण रूखा, वारीकमुखवाला, शूलयुक्त
झागो सहित और रातमें अधिक बहता है ।

पित्तजनाडीव्रणके लक्षण ।

पित्ताच्च तृड्ज्वरकरी परिदाहयुक्ता
पीतं स्रवत्यधिकमुष्णमहस्सु चापि ॥ ४ ॥

पित्तजनाडीत्रणमे तृषा, ज्वर और दाह होती है, पीले रंगकी और अत्यन्त उष्ण राध बहती है तथा दिनमे अधिक स्रवता है ॥ ४ ॥

कफजनाडीत्रणके लक्षण ।

ज्ञेया कफाद्बहुध्वनार्जुनपिच्छिला-
स्त्रा स्तब्धा सकंडुररुजा रजनीप्र-
वृद्धा ।

कफजनाडीत्रणमे अत्यंत गाढी, सफेद, चिकनी राध होती है । वह कठिन, खुजलशुक्त और रात्रिमे अधिक स्रवता है ।

द्विदोषजनाडीत्रणके लक्षण ।

दोषद्वयाभिहितलक्षणदर्शनेन ति-
स्रो गतिव्यतिकरप्रभवास्तु विद्या-
त ॥ ५ ॥

जिसमें दो दोषोके लक्षण मिलते होय उसको द्वंद्वज और जिसमें तीन दोषोके लक्षण मिलते हो उसको त्रिदोषज जानना ॥ ५ ॥

त्रिदोषजनाडीत्रणके लक्षण ।

दाहज्वरश्वसनमूर्च्छनवक्रशोषा य-
स्यां भवन्त्यभिहितानि च लक्षणा-
नि । तामादिशेतपवनपित्तकफप्रको-
पात् घोरामसुक्षयकरीमिव कालरा-
त्रिम् ॥ ६ ॥

जिसमें दाह, ज्वर, श्वास, मूर्च्छा, मुखका सूखना और पूर्वोक्त वातपित्तादिके सब लक्षण मिलते हो उसको त्रिदोषजनाडीत्रण कहते हैं । यह कालरात्रिके समान घोर और तत्काल प्राणनाशक है ॥ ६ ॥

शल्यजनाडीत्रणके लक्षण ।

नष्टं कथञ्चिदनुमार्गमुदीरितेषु स्था-
नेषु शल्यमचिरेण गतिं करोति ।
सा फेनिलं मथितमुष्णमसृग्विमिश्रं
स्त्रावं करोति सहसा सरुजं च
नित्यम् ॥ ७ ॥

पूर्वोक्तत्रणके स्थानमें कण्टकादि शल्य अनजानमे लगके रह जाय तो वह थोड़े ही कालमें नाडीत्रणको

उत्पन्न करता है । उस नाडीत्रणमे ज्ञागोयुक्त, मथेके समान, गरम, रुधिरमिश्रित राध बहे, नित्य पीडा हो उसको शल्यजनाडीत्रण जानना ॥ ७ ॥

साध्यासाध्यलक्षण ।

नाडी त्रिदोषप्रभवा न सिध्येच्छो-
षाश्चतस्रः खलु यत्नसाध्याः ॥ ८ ॥

इनमे त्रिदोषजनाडीत्रण तो साध्य नहीं है और त्रेषु चार नाडीत्रण चिकित्सा करनेसे आरोग्य हो जाते हैं ॥ ८ ॥

नाडीत्रणकी चिकित्सा ।

तत्रानिलोत्थामुपनाह्य पूर्वमशेषतः
पूयगतिं विदार्य । फलैरपामार्ग-
भवैः सुपिष्टैः ससैधवैः संपरिपूर्य
बन्धेत । प्रक्षालने वापि यदा त्रणस्य
योज्यं महद्यत् खलु पञ्चमूलम् ॥ ९ ॥

वातजनाडीत्रणको प्रथम औषधिमिश्रित पुलटिस आदिसे बाँधे फिर विधिपूर्वक गन्धसे राधके स्थानको चीर देवे फिर उस त्रणमें सैधानमकके साथ चिर-चिटेके चावलोको पीसकर भरदेवे और ऊपरसे बाँध देवे बृहत्पचमूलका काथ बना कर उस काथसे त्रणको धोवे ॥ ९ ॥

हिंसाद्यतैल ।

हिंसां हरिद्रां कटुकीं वचाश्च गो-
जिह्विकाश्चापि सपञ्चमूलम् । संहृत्य
तैलं विपचेद्द्रणस्य संशोधनं पूरण-
रोपणञ्च ॥ १० ॥

वेरीकी छाल, हलदी, कुटकी, वच, गोजिया और पंचमूल इनके कल्कके द्वारा तिलके तेलको पकावे । यह तेल त्रणको शुद्ध करनेवाला, भरनेवाला और त्रणको सुखानेवाला है ॥ १० ॥

पित्तजनाडीत्रणकी चिकित्सा ।

पित्तात्मिकां प्रागुपनाह्य धीमानुत्का-
रिकाभिः सपयोवृताभिः । निपात्य

शस्त्रं तिलनागदन्तीमञ्जिष्ठकल्कैः
परिपूरयेच्च ॥ प्रक्षालने वापि हरिद्र-
सौमनिम्बाः प्रयोज्याः कुशलेन नि-
त्यम् ॥ ११ ॥

पित्तजनाडीव्रणपर प्रथम दूध और घीसहित गेहूँ-
के आटेकी लुपरी बनाकर बांधें । पश्चात् शस्त्रसे
चीर कर उपरम तिल, जमालगोटे और मजीठ इनका
कल्क भर देवे । बुद्धिमान् वैद्य इस व्रणको नित्य
हलदी, लालचन्दन और नीमकी छाल इनके काथसे
धोता रहे ॥ ११ ॥

श्यामाघृत ।

श्यामात्रिभण्डीत्रिफलासुसिद्धं हरि-
द्रया तिल्वक्वृक्षकेण । घृतं सद्गुधं
व्रणतर्पणेन हन्याद्भक्तिं कोष्ठगतापि
था स्यात् ॥ १२ ॥

कालानिसोत, निसोत, त्रिफला, हलदी और लोह
इनके कल्कसे पकाये हुए घीमे दूध डाल कर उस
घीसे पित्तजनितनाडीव्रणको तृप्त करे तो व्रणका
स्त्राव दूर होता है ॥ १२ ॥

कफजनाडीव्रणकी चिकित्सा ।

नाडीकफोत्थासुपनाह्य पूर्व कुलित्थ-
सिद्धार्थकसक्तुविल्वैः । मृद्वीकृतामे-
कगतिं विदित्वा निपातयेच्छस्त्रम-
शेषकारि ॥ १३ ॥ दद्याद्भ्रणे निम्ब-
तिलाग्निदन्तीसुराष्टजाः सैधवसंप्र-
युक्ताः । प्रक्षालने वापि करञ्जनिम्ब-
जात्यार्कपीलुस्वरसाः प्रयोज्याः १४ ॥

कफजनाडीव्रणमे कुलथी, सरसो, सत्तू और
वेलगिरी इनकी पुलटिस बाधकर नरम करके राधके
एक स्थानमे ही मुखको जानकर अच्छे प्रकारसे
चीर देवे-पश्चात् नीम, तिल, चीता, दन्ती,
फटकरी और सैधानमक इनका चूर्ण करके भर
देवे । इस व्रणको नित्य करंज, नीम, चमेली,
आक और पीलु इनके स्वरसेसे धोवे ॥ १३ ॥ १४ ॥

स्वर्जिकाद्यतैल ।

स्वर्जिकासिन्धुदन्त्याग्निरूपिका जल-
नीलिका । खरमञ्जरिवीजेषु तैलं गो-

मूत्रसाधितम् ॥ दुष्टव्रणप्रशमनं कफ-
नाडीव्रणापहम् ॥ १५ ॥

सजी, सैधानमक, दंती, चीता, सफेद आक, सि-
वार और चिरचितेके बीज इनके कल्कके द्वारा गोमू-
त्रमें तेलको पकावे । इसको स्वर्जिकाद्यतैल कहते हैं ।
इस तेलको लगानेसे दुष्टव्रण तथा कफसम्बन्धी नाडी-
व्रण दूर हो जाता है ॥ १५ ॥

सैन्धवाद्यतैल ।

सैन्धवाक्षमरिचज्वलनाख्यैः कारवेल्ल-
रजनीद्वयसिद्धम् । तैलमेतदचिरेण
निहन्याद्दूरगामपि कफानिलना-
डीम् ॥ १६ ॥

सैधानमक, बहेडा, कालीमिरच, चीता, करेला,
हलदी और दारुहलदी इनके द्वारा पकायेहुए तेलको
सैन्धवाद्यतैल कहते हैं । इस तेलको लगानेसे कफ-
सम्बन्धी तथा वायुसम्बन्धी नाडीव्रण बहुत दूरतक
पहुँच गया हो तो भी नष्ट हो जाता है ॥ १६ ॥

शल्यजनाडीव्रणकी चिकित्सा ।

नाडीं तु शल्यप्रभवां विदार्य्य
निर्य्यात्य शल्यं प्रविशोध्य मार्गम् ।
बन्धेद्भ्रणं क्षौद्रघृतप्रगाढं निम्बास्ति-
लाच्छोध्य च रोपयेच्च ॥ १७ ॥

जो नाडीव्रण शल्यसम्बन्धी हो तो उसको शस्त्रसे
चीरकर काँटेको निकालकर व्रणके मार्गको शुद्ध करके
पश्चात् शहद तथा घीमे पिसेहुए नीमके पत्तेके कल्क-
का तथा तिलके कल्कका उसके ऊपर लेप कर देवे ।
इससे व्रण भर कर सूख जाता है ॥ १७ ॥

कुम्भीकाद्यतैल ।

कुम्भीकखर्जूरकपित्थविल्ववनस्पती-
नां च शलाटुवर्गे । कृत्वा कषायं
विपचेत्तु तैलमवाप्य मुस्तं सरलं प्रि-
युगुम् ॥ १८ ॥ सौगन्धिकं मोचरसा-
ऽहिपुष्पलोघ्राणि दत्त्वा खलु धातकीं
वा । एतेन शल्यप्रभवा हि नाडी रो-
हेद्भ्रणो वा सुखमाशु चैव ॥ १९ ॥

जमालगोटा, खजूर, कैथ, बेलगिरी और बड इनके कच्चे फलोंका काथ बनाकर उसमें नागरमोथा फूलप्रियंगु, धूपसरल, खस, मोचरस, नागकेशर, लोघ और धायके फूल इनका कल्क डालकर तेलको पकावे । इस कुम्भीकाद्यतैलको लगानेसे शल्यसम्बन्धी नाडीव्रण और अन्यान्य समस्त व्रण नष्ट होते हैं ॥ १८ ॥ १९ ॥

स्तुह्यर्कदुग्धदावीणां वर्त्तिं कृत्वा प्रपूरयेत् । एष सर्वशरीरस्थां नाडीं हन्यात्प्रयोगराट् ॥ २० ॥

थूरका दूध, आकका दूध और दारुहलदी इनकी बत्ती बना कर व्रणमें रखनेसे सब प्रकारके नाडीव्रण नष्ट हो जाते हैं ॥ २० ॥

आरवग्धनिशाकालं चूर्णयेत् क्षौद्रसंयुतम् । मूत्रे वर्त्तिव्रणे योज्या शोधिनी गतिनाशिनी ॥ २१ ॥

अमलतास, हलदी और निसोत इनको गोमूत्रमे पीसकर शहदमें मिलाकर बत्ती बनाकर व्रणमें रखे तो व्रण शुद्ध हो जाता है और राधकी गति भी नष्ट होजाती है ॥ २१ ॥

वर्त्तीकृतं माक्षिकसंप्रयुक्तं नाडीव्रमुक्तं लवणोत्तमं वा । दुष्टव्रणे यद्विहितं तु तैलं तत्सेव्यमानं गतिमाशु हन्ति ॥ २२ ॥

सैधानमकको शहदमे मिलाकर उससे सूतकी बत्ती बनाकर व्रणमें रखनेसे नाडीव्रण नष्ट होजाता है। दुष्टव्रणपर जो तेल कहे है उनको सेवन करनेसे भी राधकी गति तत्काल नष्ट हो जाती है ॥ २२ ॥

जात्यर्कशम्याककरञ्जदन्तीसिन्धूत्थसौवर्चलयावशुकैः । वर्त्तिः कृता हन्त्यचिरेण नाडीं स्लुकक्षीरपिष्टा सह चित्रकेण ।

चमेली, आक, अमलतास, करंज, जमालगोटे, सैधानमक, कालानमक, जवाखार और चीता इनको भूहरके दूधमें पीसकर तथा बत्ती बनाकर व्रणमें रखनेसे नाडीव्रण तत्काल नष्ट हो जाता है ॥

विभीतकाम्रास्थि-बटप्रवाल-हरेणुका शङ्खिनीबीजनिश्वा । बराहविट् सूक्ष्ममषी प्रदेया नाडीस्तु तैलेन विमिश्रयित्वा ॥ २३ ॥

बहेडे, आमकी गुठली, बडके अकुर, रेणुका, शंखालुलीके बीज और सूअरकी विष्टा इनको जला कर स्याही बनावे । इस स्याहीको तेलमे मिलाकर लगानेसे नाडीव्रण तत्काल नष्ट हो जाता है ॥ २३ ॥

मेषरोममषी ।

मेषरोममषी तस्यां कटुतैलविपाचिताम् । नाडीव्रणं चिरोद्भूतं जयेत्तलकसंगमात् ॥ २४ ॥

भेडके वालोको जलाकर स्याही बनावे उस स्याहीको कड़वे तेलमे पकाकर रुईके योगसे बत्ती बनावे उन बत्तियोंको नाडीव्रणमे रखनेसे व्रण तत्काल भर जाता है ॥ २४ ॥

कर्पूराद्यतैल ।

कर्पूरस्य रसेनैव कटुतैलं विपाचयेत् । सिन्दूरकल्कितं नाडीदुष्टव्रणविसर्पणुत् ॥ २५ ॥

कपूरके काथमे सिन्दूरके कल्कके द्वारा कड़वे तेलको पकावे । इस तेलको भरनेसे नाडीव्रण, दुष्टव्रण और विसर्परोगादि दूर होते है ॥ २५ ॥

स्वर्जिकाद्यतैल ।

स्वर्जिका सैधवं दन्ती नीलीमूलं फलं तथा । मूत्रे चतुर्गुणे सिद्धं तैलं नाडीव्रणापहम् ॥ २६ ॥

सजी, सैधानमक, दन्ती, नीलीकी जड और फल इनके कल्कके द्वारा चाँगुने गोमूत्रमें तिलके तेलको पकावे । यह तेल नाडीव्रणको दूर करता है ॥ २६ ॥

सर्वो व्रणक्रमः कार्यो शोधनारोपणादिकः ।

व्रणरोगमे शोधन और रोपणादि जो चिकित्सा कही है वह सब नाडीव्रणके ऊपर भी करनी चाहिये।

सप्ताङ्गगुग्गुलु ।

गुग्गुलुत्रिफलाव्योषैः समाशैराज्य-
योजितैः । अक्षप्रमाणां गुटिकां खा-
देदेकामतन्द्रितः ॥ २७ ॥ नाडीं दु-
ष्टव्रणं शूलमुदावर्त्त भगन्दरम् । गुल्मं
च गुदजान् हन्यात् पक्षिराट् पत्र-
गानिव ॥ २८ ॥

गूगल, त्रिफला और त्रिकुटा इन सबको समान
भाग लेकर चूर्ण करले । इस चूर्णको घीमें मिलाकर
एक एक तोलेकी गोलियां बनालेवे । प्रतिदिन एक
गोली खाय और परहेजसे रहे । यह गोली-दुष्टनाडी-
व्रण, दुष्टव्रण, शूल, उदावर्त्त, भगन्दर, गुल्म और
ववासीर इन सब रोगोको इस प्रकार नष्ट कर देती है
जिस प्रकार गरुड सर्पोंके समूहको नष्ट कर देता
है ॥ २७ ॥ २८ ॥

या द्विव्रणीये विहितास्तु वर्त्यस्ताः
सर्वनाडीषु भिषग्विदध्यात् ॥ २९ ॥
कृशदुर्बलभीरूणां नाडीं मर्माश्रिता-
मपि । क्षारसूत्रेण तां छिन्द्यान्न श-
स्त्रेण कदाचन ॥ ३० ॥

जो द्विव्रणमे वत्ती कही है उन वक्तियोंको सर्व
प्रकारके नाडीव्रणोंमें भी प्रयोग करना चाहिए। कृश,
दुर्बल और भीरु इनके उत्पन्न हुए नाडीव्रणको तथा
मर्मस्थानोंमें उत्पन्न हुए नाडीव्रणको क्षारमें भीजे हुए
डोरेसे फोडे किंतु शस्त्रसे कदापि न चीरे। २९ ॥ ३० ॥

एषयागतिमन्विष्य क्षारसूत्रानुसा-
रिणीम् । सूचीं विदध्यान्नाड्यन्ते
श्रोत्रम्याशु विनिर्हरेत् ॥ ३१ ॥ सू-
त्रस्यान्तं समानीय गाढं बन्धं समा-
चरेत् । ततः क्षारबलं वीक्ष्य सूत्रम-
न्यत्प्रवेशयेत् ॥ ३२ ॥ क्षाराक्तं मति-
मान् वैद्यो यावन्न च्छिद्यते गतिः ।
भगन्दरेऽप्येष विधिः कार्यो वैद्येन
जानता ॥ ३३ ॥ अर्बुदादिषु चो-
त्क्षिप्य मूले सूत्रं निधापयेत् । सूचि-
भिर्यवक्राभिराचितं वा समन्ततः ।

मूले सूत्रेण बध्नीयाच्छिन्ने चोपचरेद्द-
णम् ॥ ३४ ॥

नाडीव्रणकी गतिको एपणीसे साधन करे और
कहांसे सूखा है और कहांसे हरा है यह जानकर विधि-
पूर्वक क्षार सूत्रके द्वारा सुई छेद देवे, राधको निकाल
डाले, फिर सूत्रके अन्तमें गाँठ देकर बाँध देवे, क्षारके
वलानुसार फिर दूसरा सूत उसमें प्रविष्ट करे, जव-
तक नाडीव्रणका मार्ग नहीं हो तवतक बराबर इसी
प्रकार क्षारसूत्र प्रवेश करे और यही विधि भगन्द-
ररोगमें भी करे । अर्बुदादि रोगोंमें उनको ऊँचा करके
उनके मूलमें क्षारसे भीजा हुआ डोरा बाँधे अथवा
व्रणको 'जौके' समान मुखवाली सुईसे चारों ओर
छेदकर उसकी जड़में डोरा बाँधे और व्रणके छिद्
जानेपर अन्य उपचार करे ॥ ३१-३४ ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां नाडी-
व्रणाधिकार' समाप्तः ॥ ५३ ॥

अथ भगन्दररोगाधिकार ।

गुदस्य द्व्यंगुले क्षेत्रे पार्श्वतः पिटि-
कार्तिकृत । भिन्ना भगन्दरो ज्ञेयः
स च पञ्चविधो मतः ॥ १ ॥

गुदाके निकट एक बाजूपर दो अंगुल जगह छोड
कर ऊची एक फुडिया हो उसमें पीडा हो और वह
फूट जाय तो उसको भगन्दर कहते है । वह पांच
प्रकारका है । यह भगाकार विदीर्ण होता है इस
कारण इसको भगन्दर कहते है ॥ १ ॥

भगन्दरका पूर्वरूप ।

कटीकपालनिस्तोद-दाहकण्डूरुजाद-
यः । भवन्ति पूर्वरूपाणि भविष्यन्ति
भगन्दरे ॥ २ ॥

कमरके समीप जो कपालनामक हाड है उसमें
सुई चुभानेके समान पीडा तथा उस फुडियामें दाह
और खुजली हो इसके अतिरिक्त और भी पीडादिक
हो यह भगन्दरका पूर्वरूप है ॥ २ ॥

वातजशतपोनकभगन्दरके
निदान और लक्षण ।

कषायरूक्षैरतिकोपितोऽनिलस्त्वपा-
नदेशे पिटिकां करोति याम् । उपे-
क्षणात्पाकमुपैति दारुणं रुजा च भि-
न्नारुणफेनवाहिनी ॥ ३ ॥ तत्रागमो
मूत्रपुरिषरेतसां व्रणैरनेकैः शतपोनकं
वदेत् ॥ ४ ॥

कपले और रुख पदार्थोंको भक्षण करनेसे वायु
अत्यन्त कुपित होकर गुदाके समीप एक फुडिया
उत्पन्न करता है उसकी उपेक्षा करनेसे वह फुडिया
पकती और फूटजाती है तब उममे घोर पीडा होती है
और लाल एवं आगोंयुक्त राध बहती है, फिर उसमे
अनेक छिद्र होजाते हैं, उन छिद्रोंके द्वारा मूत्र, मल
और शुक्र बहता है, इसमें चलनीकेसे अनेक छिद्र होते
हैं इस कारण इसको शतपोनक कहते हैं ॥ ३ ॥ ४ ॥

पैत्तिकउष्ट्रग्रीवभगन्दरके
निदान और लक्षण ।

प्रकोपनैः पित्तमतिप्रकोपितं करोति
रक्तां पिटिकां गुदश्रिताम् । तदाशु
पाकाहिमप्यवाहिनीं भगन्दरं चो-
ष्ट्रशिरोधरं वदेत् ॥ ५ ॥

अत्यन्त पित्तकारक पदार्थोंके सेवन करनेसे पित्त
कुपित होकर गुदाके निकट लाल रंगकी फुडिया उत्पन्न
करता है, वह फुडिया गीत्र पकजाती है, उसमेंसे गरम
राध बहती है। वह फुडिया ऊँटकी गर्दनके समान होती
है इस कारण इसको उष्ट्रशिरोधर कहते हैं ॥ ५ ॥

श्लैष्मिकपरिस्रावीभगन्दरके लक्षण ।
कंडूयनो घनस्रावी कटिनो मन्दवे-
दनः । श्वेतावभासः कफजः परिस्रा-
वी भगन्दरः ॥ ६ ॥

जिसमें खुजली हो, गाढी राध बहे, भगन्दरकी
फुडिया कटिन, अल्प पीडायुक्त और उसका रंग
सफेद हो उसको परिस्रावी कहते हैं ॥ ६ ॥

त्रिदोषजन्यशम्बूकावर्त-
भगन्दरके लक्षण ।

बहुवर्णरुजास्रावाः पिटिका गोस्तनो-
पमाः । शम्बूकावर्तवन्नाडी शम्बू-
कावर्तको मतः ॥ ७ ॥

जिसमे गायके स्तनके समान अनेक फुंसी हो
उनका रंग, पीडा और स्राव अनेक प्रकारका हो एवं
उनका छिद्र घोघेकी घेरेके समान होता है । इसको
त्रिदोषजशम्बूकावर्त कहते हैं ॥ ७ ॥

शल्यसम्बन्धीउन्मार्गिभगन्दरके
लक्षण ।

क्षनाहतिः पायुगता विवर्द्धते ह्युपे-
क्षणात्सा कृमिभिर्विदार्यते । प्रकुर्वते
मार्गमनेकधा मुखैर्व्रणैस्तमुन्मार्गिभ-
गन्दरं वदेत् ॥ ८ ॥

गुदाके निकट काँटे आदिके लगनेसे घाव होजाने
पर उसका उपाय न करनेसे वह बढ़ते २ गुदातक
पहुँच जाता है, इतने पर भी उसका उपाय न किया
जाय तो उसमें कीड़े पडजाते हैं और वे कीड़े उसमे
अनेक छिद्र करदेते हैं उसको उन्मार्गिभगन्दर
कहते हैं ॥ ८ ॥

साध्यासाध्यलक्षण ।

घोराः साधयितुं दुःखाः सर्व एव
भगन्दराः । तेष्वसाध्यस्त्रिदोषोत्थः
क्षतजश्च विशेषतः ॥ ९ ॥ वातमूत्र-
पुरीषाणि कृमयः शुक्रमेव च । भग-
न्दरात् स्रवन्तरतु नाशयन्ति तमा-
तुरम् ॥ १० ॥

सर्व प्रकारके भगन्दर अत्यन्त कष्टसाध्य हैं। उनमे
त्रिदोषज असाध्य है और क्षतज विशेष करके असा-
ध्य है । जिस भगन्दररोगमे अवावायु, मूत्र, विष्ठा,
कीड़े और वीर्य स्रवता हो वह रोगी अवश्य मृत्युको
प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ १० ॥

भगन्दररोगकी चिकित्सा ।

अथास्य पिटिकामेव तथा यत्नाद्दु-
पाचरेत् । शुद्धयस्रसृतिसैकाद्यैथथा
पाकं न गच्छति ॥ ११ ॥

भगन्दरकी फुन्सी उत्पन्न होतेही उसका यत्न करना चाहिये जिससे कि वह पके नहीं । गोधन, रुधिर-मोक्षण (जांकद्वारा रुधिर निकलवाना) और सेचन इत्यादि उपचार करनेसे फुन्सी नहीं पकती है ॥ ११ ॥

वटपत्रेष्टकाशुण्ठीगुडूचीसपुनर्नवाः ।

सुपिष्टः पिटिकाऽवस्थे लेपः शस्तो भगन्दरे ॥ १२ ॥

बडके पत्ते, ईट, सोठ, गिलोय और पुनर्नवा इनको अच्छे प्रकारसे पीसकर जहाँतक भगन्दरकी फुन्सी हो वहाँतक लेप करे ॥ १२ ॥

पिटिकानामपाकानामपतर्पणपूर्वकम् ।
कर्म कुय्याद्विरेकांतं भिन्नानां
वक्ष्यते क्रिया ॥ १३ ॥ एषणीपाट-
नक्षारवह्निदाहादिकं क्रमम् । विधा-
य व्रणवत्कार्यं यथादोषं यथाक्र-
मम् ॥ १४ ॥

जो भगन्दरकी फुन्सी न पकी हो तो लघनसे लेकर विरेचनतक क्रिया करे । फुन्सीको फोड़नेकी जो क्रियाएँ हैं उनको कहते हैं एषणीनामक शस्त्रसे चीरे, क्षार लगावे और अग्निदाह आदि कर्म करे । उसकी गहराई देखकर फिर उत्पाटन शस्त्रसे पश्चात् यथादोषानुसार तथा क्रमानुसार व्रणके समान क्रिया करे ॥ १३ ॥ १४ ॥

पयःपिष्टैस्तिलैराज्यमधुकैश्च सुशी-
तलैः । भगन्दरे प्रशस्तोऽयं सरक्ते
वेदनावति ॥ १५ ॥

रुधिर और वेदनावाले भगन्दरपर तिल और सुलैठी इनको दूधमे पीसकर घीमें मिलाकर गीतल करके लेप करे ॥ १५ ॥

सुमना वटपत्राणि गुडूचीविश्वभेषज-
म् । सैन्धवं तक्रपिष्टञ्च लेपाद्गन्ति
भगन्दरम् ॥ १६ ॥

चमेलीके पत्ते, बडके पत्ते, गिलोय, सोंठ और सैवानमक इन सबको एकत्र तक्रमे पीसकर भगन्दर-पर लेप करनेसे भगन्दर नष्ट होता है ॥ १६ ॥

त्रिवृत्तिलानला दन्ती मञ्जिष्ठा सह
सर्पिषा । उत्सादनं भवेदेतत्सैधवक्षौ-
द्रसंयुतम् ॥ १७ ॥

निसोत, तिल, चीता, जमालगोटा, मजीठ और सैधानमक इनको एकत्र पीसकर घी और शहदमें मिलाकर भगन्दरके ऊपर लेप करनेसे भगन्दर अवश्य नष्ट होता है ॥ १७ ॥

खदिराम्बुरतो भूत्वा कषायं त्रैफलं
पिवेत् । महिषाक्षविडङ्गानां भगन्दर-
विनाशनम् ॥ १८ ॥

भगन्दररोगी नित्य तृपाके समय खैरका काथरस पीवे और त्रिफलेके काथमे भौसिया गुगल और वायविवडंग डालकर पान करे, इससे भगन्दररोग नष्ट होता है ॥ १८ ॥

जंबूकमांसमश्रीयात् प्रकारैर्व्यञ्जना-
दिभिः । अजीर्णवर्जी मासेन मुच्यते
स भगन्दरात् ॥ १९ ॥

अनेक मांसके व्यञ्जनसे सिद्ध किये हुए आहारमे गीदडके मांसको भक्षण करे और अजीर्ण न होने देवे, इसको एक महीनेतक सेवन करनेसे भगन्दर-रोग नष्ट होता है ॥ १९ ॥

न्यग्रोधादिगणो यश्च हितः शोधन-
रोपणः । तैलं घृतं वा तत्पक्वं भगन्द-
रविनाशनम् ॥ २० ॥

न्यग्रोधादिगण जो कि व्रणको शुद्ध करनेवाला और भरनेवाला है उसके कल्कके द्वारा तेल अथवा घृतको पकाकर सेवन करनेसे भगन्दररोग नष्ट होता है ॥ २० ॥

तिला ज्योतिष्मती कुष्ठं लाङ्गलिर्गि-
रिर्कर्णिका । शताह्वात्रिवृतादन्त्यः
शोधनाश्च भगन्दरे ॥ २१ ॥

तिल, सालकांगनी, कूट, कलिहारी, कोंइली, सौफ, निसोत और दंती इनका काथ भगन्दरके व्रणको शुद्ध करता है ॥ २१ ॥

तिलाभयाकुष्ठमरिष्टपत्रं निशे बला-
लोध्रमगारधूमम् । भगन्दरे चाप्युपदं-
शजे च दुष्टव्रणे शोधनरोपणाय ॥ २२ ॥

तिल, हरड, कूट, नीमके पत्ते, हलदी, दारुहलदी, खिरौंटी, लोध और घरका धुआँसा इन सबको एकत्र मिलाकर भगन्दरपर लगानेसे भगन्दर, उपदंश और दुष्ट व्रण शुद्ध होकर भर जाते हैं ॥ २२ ॥

स्तुह्यर्कदग्धदावीभिर्वर्ति कृत्वा वि-
चक्षणः । भगन्दरगतिं ज्ञात्वा पूरयेतां
प्रयत्नतः ॥ एषा सर्वशरीरस्थां ना-
डीं हन्ति न संशयः ॥ २३ ॥

थूहरका दूध, आकका दूध और दारुहलदी इनकी
वत्ती बनाकर प्रयत्नसे भगन्दरमे रक्खे । यह प्रयोग
सम्पूर्ण शरीरमें स्थित नाडीव्रणको निश्चय नष्ट कर-
देता है ॥ २३ ॥

त्रिफलारससंयुक्तं विडालास्थिप्रले-
पनम् । भगन्दरं निहन्त्याशु दुष्टव्रण-
हरं परम् ॥ २४ ॥

विडावकी हड्डीको त्रिफलेके रसमें पीसकर लेप
करनेसे गीत्र ही भगन्दररोग तथा दुष्टव्रण नष्ट
होता है ॥ २४ ॥

कुष्ठं त्रिवृत्तिला दन्ती मागधपः सैधवं
मथु । रजनीत्रिफलातुत्थं हिनं स्या-
द्व्रणशोधनम् ॥ २५ ॥

कूठ, निसोत, तिल, दंती, पीपल, सैधानमक,
हलदी, त्रिफला और नीलायोथा इन सबको एकत्र
पीसकर शहदमें मिलाकर भगन्दरके व्रणपर लगावे,
इससे व्रण शुद्ध होता है ॥ २५ ॥

रसाञ्जनं हरिद्रे द्वे मञ्जिष्ठानिम्बप-
ल्लावाः । त्रिवृत्तेजोवती दन्ती कल्को
नाडीव्रणापहः ॥ २६ ॥

रसांत, हलदी, दारुहलदी, मजीठ, नीमके पत्ते,
निसोत, तेजवल और दंती इनका कल्क नाडीव्रणको
नष्ट करता है ॥ २६ ॥

ज्योतिष्मती लाङ्गली च श्यामादन्ती-
त्रिवृत्तिलाः । कुष्ठं शताहागोलो-
मी मूर्वाशोधनमिष्यते ॥ २७ ॥

मालकांगनी, कलिहारी, काला निसोत, दंती,
निसोत, तिल, कूठ, सौंफ, सफेददूब और मूर्वा ये सब
औपचिया व्रणको शुद्ध करनेके लिए उत्तम हैं ॥ २७ ॥

मधुतैलयुता विडंगत्रिफलामागाधि-
काकणाश्च लीढाः । कुष्ठभगन्दरक्षत-
नाडीव्रणरोपणा भवन्ति ॥ २८ ॥

वायविडंग, त्रिफला, पीपल और गजपीपल इन
सबको एकत्र पीसकर शहद और तेलमें मिलाकर
चाटे तो कुष्ठ, भगन्दर, क्षत और नाडीव्रण भी भर
जाता है ॥ २८ ॥

विष्यन्दनतैल ।

चित्रकाकौ त्रिवृत्पाठे मलयूहयमा-
रकौ । सुधां वचां लाङ्गलकीं हरि-
तालं सुवर्चलम् ॥ २९ ॥ ज्योतिष्म-
तीश्च संहृत्य तैलं धीरो विपाचयेत् ।
एतद्विष्यन्दनं नाम तैलं दद्याद्भग-
न्दरे । शोधनं रोपणञ्चैव बलवर्ण-
करं तथा ॥ ३० ॥

चीता, आक, निसोत, पाठ, कटूमर, कनेर, थूहर,
वच, कलिहारी, हरिताल, कालानमक और मालकां-
गनी इनके कल्कके द्वारा पकाये हुए तेलको विष्य-
न्दनतैल कहते हैं । इस तेलको भगन्दररोगमें प्रयोग
करना चाहिए । यह तेल व्रणको शुद्ध करनेवाला
और भरनेवाला है तथा बल और वर्णको उत्तम कर-
नेवाला है ॥ २९ ॥ ३० ॥

निशाद्यतैल ।

निशार्कक्षीरसिन्धूत्थपुराऽश्वहरव-
त्सकैः । सिद्धमभ्यञ्जनं तैलं भगन्दर-
हरं परम् ॥ ३१ ॥

हलदी, आकका दूध, सैधानमक, गूगल, कनेर
और इन्द्रजौ इनके कल्कके द्वारा तेलको पकावे । इस
तेलके अभ्यंग आदि करनेसे भगन्दर रोग नष्ट होता
है ॥ ३१ ॥

करवीराद्यतैल ।

करवीरनिशादन्तीलाङ्गलीलवणाग्नि-
भिः । मातुलुङ्गकवत्साहैः पचेत्तैलं
भगन्दरे ॥ ३२ ॥

कनेर, हलदी, दन्ती, कलिहारी, सैधानमक, चीता, विजौरानबिं और इन्द्रजौ इनके कल्केके द्वारा तेलकां पकावे । यह तेल भगन्दररोगको नष्ट करता है ॥ ३२ ॥

नवकार्षिकगुग्गुलु ।

त्रिफलापुरकृष्णानां त्रिपञ्चकांशयो-
जिता । गुटिका शोथगुल्मार्शोभग-
न्दरवतां हिता ॥ ३३ ॥

त्रिफला ३ भाग, गुग्गुलु ५ भाग और पीपल १ भाग इन सबको एकत्र पीसकर गोली बनावे । यह गोली-सूजन, गुल्म, ववासीर और भगन्दररोगको नष्ट करती है ॥ ३३ ॥

नाड्यन्तरे व्रणः कुर्याद्विषक् तु श-
तपोनके । ततस्तेष्ववरूढेषु शेषा
नाडीरूपाचरेत् ॥ ३४ ॥

शतपोनक नामक भगन्दरमे उसकी नालीके भी-
तर शस्त्रसे चीरकर घाव करदेवे और जब वह व्रण
सूखजाय तब दूसरी नलीका उपचार करे ॥ ३४ ॥

व्याधौ तत्र बहुच्छिद्रे भिषजा तु वि-
जानता । अर्धलाङ्गलिकश्छेदः का-
र्यो लाङ्गलिकोऽपि च ॥ ३५ ॥ सर्वतो
भद्रको वापि कार्यो गोतीर्थकोऽपि
वा । द्वाभ्यां समाभ्यां पार्श्वभ्यां
छेदो लाङ्गलिको मतः ॥ ३६ ॥ ह्रस्व-
भेकतरं यत्तु सोऽर्द्धलाङ्गलिकः स्मृ-
तः । सेवनीं वर्जयित्वा तु चतुर्द्धा
दारिते गुदे ॥ ३७ ॥ सर्वतोभद्रकं
छेदमाहुश्छेदविदो जनाः । पार्श्व-
दागतशस्त्रेण छेदो गोतीर्थको मतः
॥ ३८ ॥ सर्वानास्त्रावमार्गास्तु दहेद्वै-
द्यस्तथाग्निना । अथोष्ट्रग्रीवमोषिण्या
छित्वा क्षारं निपातयेत् ॥ पूतिमांस-
व्यपोहार्थमग्नित्र न पूजितः ॥ ३९ ॥

बहुत छिद्रोंवाले इस शतपोनक नामक भगन्दर-
में वैद्य विचार कर अर्धलांगलिक, लांगलिक, सर्वतो-
भद्रक अथवा गोतीर्थक नामक छेद करे । जिस छे-

दक दोनों पार्श्व (वाजू) समान रक्त्वे जाँय उसको
लांगलिक कहते हैं । जिस छेदमें एक पार्श्व छोटा
रक्खा जाय उसको अर्धलांगलिक कहते हैं । सीवनको
छोडकर चारों ओरसे गुदाको चीरा जाय उस छिद्रको
सर्वतोभद्र कहते हैं । पार्श्वमें शस्त्र डालकर जो छिद्र
क्रिया जाय तो उसको गोतीर्थक कहते हैं । इस प्रकार
वैद्य छेद करके शतपोनकके सम्पूर्ण त्वावके मार्गोंको
अग्निसे दाग देवे । उष्ट्रग्रीवक नामक भगन्दर हुआ
हो तो राधकी गतिको एषणी शस्त्रसे भीतरकी गह-
राई देखकर शोधकर उत्पादन शस्त्रसे चीरकर क्षार
लगावे, सडे हुए दुर्गन्धित मांसको निकालनेके लिये
अग्निसे दग्ध न करे, क्योंकि यह पित्त जनक है ।
॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥

उत्कृत्याऽऽस्त्रावमार्गान्तु परिस्त्राविणि
बुद्धिमान् । क्षारेणाऽऽस्त्रावितगतिं
दहेद्दुतवेहन वा ॥ ४० ॥

परिस्त्रावीनामक भगन्दर हुआ हो तो बुद्धिमान्
वैद्य स्त्रावके मार्गको चीरकर क्षारसे अथवा अग्निसे
स्त्रावकी गतिको दहन करे ॥ ४० ॥

गतिमन्विष्य शस्त्रेण छिन्द्यात् खर्जू-
रपत्रकम् । चन्द्रार्द्धचन्द्रवक्रश्च सूची-
मुखमवाङ्मुखम् ॥ छित्वाग्निना दहे-
त्सम्यगेवं क्षारेण वा पुनः ॥ ४१ ॥

अम्बूकावर्तनामक भगन्दरमे स्त्रावके मार्गकी
एषणी शस्त्रसे गतिको देखकर शोधन करके खर्जू-
रपत्रके शस्त्रसे चन्द्रार्ध, चन्द्रवक्र, सूचीमुख और
अवाङ्मुखनामक छेद करके पश्चात् अग्निसे अथवा
क्षारसे अच्छे प्रकारसे दहन करे ॥ ४१ ॥

येषान्तु शस्त्रपतनाद्वेदना ह्यतिजा-
यते । तत्राशु तैलनोष्णेन परिषेकः
प्रशस्यते ॥ ४२ ॥

जिनके शस्त्रसे चीरनेसे अत्यन्त वेदना हो तो वह
वैद्य तत्काल गरमतेलसे सेचन करे ॥ ४२ ॥

आगन्तुजे भिषङ् नाडीं शस्त्रेणोत्कृ-
त्य यत्नतः । यवोष्ट्रनाग्निवर्णेन तप्तया
वा शलाकया ॥ ४३ ॥ ॥ दहेद्यथाक्ते
मतिमांस्तं व्रणं सुसमाहितः ॥ ४४ ॥

शल्यसम्बन्धी भगन्दर हो तो बुद्धिमान् वैद्य यत्न पूर्वक उसकी नालीको शस्त्रसे चीरे, तपाये हुए अधि-
के वर्णके समान यवोष्ट नामक शस्त्रसे अथवा तप्त
कीहुई सलाईसे शास्त्रानुसार दाग देवे ॥४३॥४४॥

पथ्यापथ्य ।

व्यायामं मैथुनं युद्धं पृष्ठयानं गुरू-
णि च । संवत्सरं परिहरेदुपरूढव्रणो
नरः ॥ ४५ ॥

जो भगन्दरका व्रण भरकर सूख गया हो तो भी
मनुष्य एक वर्ष पर्यन्त दण्ड, कसरत, मैथुन, युद्ध,
घोड़े, हाथी आदिपर बैठना और भारी अन्न पानका
भोजन यह सब त्याग देवे ॥ ४५ ॥

इति श्रीवंगसेने भापाटीकायां
भगन्दररोगाधिकार
समाप्तः ॥ ५४ ॥

अथ उपदंशरोगाधिकार ।



हस्ताभिघातान्नखदन्तपातादधावना-
दत्युपसेवनाच्च । योनिप्रदोषाच्च
भवन्ति शिश्रे पञ्चोपदंशा विधिधा-
पचारैः ॥ १ ॥

हाथकी चोटके लगनेसे, नख अथवा दांतोंकी
चोटके लगजानेसे, अतिमैथुन करनेसे, मैथुन करके
लिंगको नहीं धोनेसे, या लिंगको नित्य न धोनेसे, पशु
आदिके साथ प्रसंग करनेसे, रोगसे दूषित योनिवाली
अथवा तीक्ष्ण केशयुक्त दुष्टयोनिवाली स्त्रियोंके साथ
प्रसंग करनेसे इत्यादि अनेक कारणोंसे वातज, पित्तज,
कफज, त्रिदोषज संसर्गज और रक्तज इसप्रकार
लिंगमे पाच प्रकारका उपदंश (भातशक) होता है ॥१॥

वातोपदंशके लक्षण ।

सतोदभेदस्फुरणैः सकृणैः स्फोटै-
र्व्यवस्येत्पवनोपदंशम् ।

लिंगमे काले रंगके फोडे हो, उनमें तोडने, फोड-
नेकीसी पीडा हो और लिंग फडके उसको वातज
उपदंश कहते हैं ।

पित्तोपदंश वा रक्तोपदंशके
लक्षण ।

पित्तैर्बहुक्लेदयुतैः सदाहैः पित्तेन
रक्तात्पिशितावभासैः ॥ २ ॥

पित्तज उपदंशमें पीले रंगके फोडे होते हैं उनमें
अधिक स्राव तथा द्राह होती है और रक्तज उपदंशमें
फोडे मांसके समान लाल होते हैं ॥ २ ॥

कफोपदंशके लक्षण ।

सकंडरैः शोथयुतैर्महद्भिर्युक्तैर्धनैः
स्त्रावयुतैः कफेन ।

कफज उपदंशमें सफेद बडे फोडे होते हैं उनमें
खुजली सूजन और गाढा स्राव होता है ।

त्रिदोषज उपदंशके लक्षण ।

नानाविधस्त्रावरुजोपपन्नमसाध्यमा-
हुद्धिमलोपदंशम् ॥ ३ ॥

सन्निपातज उपदंशमें नानाप्रकारका स्राव और
अनेकप्रकारकी पीडा होती है, यह उपदंश असाध्य
है ॥ ३ ॥

असाध्य लक्षण ।

प्रशीर्णमांसं कृमिभिः प्रजग्धं मुष्का
वशेषं परिवर्जयेच्च ॥ ४ ॥

जिस उपदंशमें लिंगका मांस गलजाय और
लिंगको कीडे खाजायँ, केवल अण्डकोष धाकी रह-
जायँ उसकी वैद्य चिकित्सा न करे ॥ ४ ॥

उपदंशकी उपेक्षाका फल ।

संजातमात्रेण करोति मूढः क्रियां
नरो यो विषये प्रसक्तः । कालेन
शोथः कृमिदाहपाकैः प्रशीर्णशि-
श्रो म्रियते स तेन ॥ ५ ॥

जो मूढ मनुष्य विषयमें आसक्त होकर उपदंशके
उत्पन्न होतेही उसका यत्न नहीं करता उसके काला-
न्तरमें सूजन होकर लिंगमें कृमि पडजाते हैं तथा

उसमें दाह पाक और अन्तमें इन्द्रिय गलकर रोगी मृत्युको प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

लिङ्गार्शके लक्षण ।

अंकुरैरिव सञ्जातैरुपर्युपरिसंस्थितैः ।
क्रमेण जायते वर्तिस्ताम्रचूडाशिखो-
पमा ॥ ६ ॥ क्रीषस्योभ्यन्तरे सन्धौ
पर्वसन्धिगताऽपि वा । लिङ्गवर्तिरि-
ति ख्याता लिङ्गार्श इति चापरे ।
सवेदना पिच्छला च दुश्चिकित्स्या
त्रिदोषजा ॥ ७ ॥

धान्यके अंकुरके समान ऊपर ऊपरको क्रमसे बढ़ती हुई लिङ्गमे, संधियोंमे अथवा लिङ्गकी सुपारीके नीचे मुरगेकी कलगीके समान जो बत्तीसी उत्पन्न होती है, उसको लिङ्गवर्ती कहते है । कितने ही वैद्य इसको लिङ्गार्श भी कहते है । यह लिङ्गार्श पीडा-सहित पिच्छल सन्निपातसे उत्पन्न होकर अत्यन्त दुर्निवार्य्य होजाती है ॥ ६ ॥ ७ ॥

उपदंशरोगोंकी चिकित्सा ।

उपदंशेषु साध्येषु स्निग्धस्विन्नस्य दे-
हिनः । भद्रमध्ये शिरौ विध्येत्पातयेद्वा
जलौकसः ॥ ८ ॥

साध्य उपदंशमें रोगीको स्नेहन तथा स्वेदन करके उसके लिङ्गकी बीचकी शिराको वेधे अथवा जौके लगावे ॥ ८ ॥

हरेदुभयतश्चापि दोषानत्यर्थमूर्च्छि-
तान् । सद्यो निर्हतदोषस्य रुक्शोथा-
वुपशाम्यतः ॥ ९ ॥

वमन तथा विरेचन ठेकर उपदंशरोगीके अत्यन्त बड़े हुए दोषोंको शमन करे । इस प्रकार करनेसे दोषोंकी लघुता होकर सूजन और पीडा तत्काल शा-
व होजाती है ॥ ९ ॥

यादि वा दुर्बलो जन्तुर्न च प्राप्तवि-
रेचनः । निरुहेण हरेत्तस्य दोषान-
त्यर्थमूर्च्छितान् । पाको रक्ष्यः प्रय-
त्नेन शिश्नक्षयकरो हि सः ॥ १० ॥

जो उपदंशरोगी अत्यन्त दुर्बलताके कारण विरे-
चनके योग्य नहीं हो तो उसके अत्यन्त बड़े हुए दोषों-
को निरुहवास्तिके द्वारा दूर करे । उपदंशरोगमें
जिसप्रकार हो सके पकने नहीं देवे, क्योंकि पकजा-
नेसे लिङ्गका क्षय होजाता है ॥ १० ॥

प्रपौण्डरीकयष्ट्याहंसरलागुरुदारु-
भिः । सरास्नाकुष्ठपृथ्वीकैर्वातिके
लेपसेचने ॥ ११ ॥

वातजउपदंशमे पुंडेरिया, मुलैठी, धूपसरल,
अगर, देवदारु, रायसन, कूठ और इलायची इन
औषधियोंका कल्क बनाकर लेप करे और इन्हीं
औषधियोंके रससे सेचन करे ॥ ११ ॥

निचुलैरण्डबीजानि यवगोधूमसक्त-
वः । एतैश्च वातजं स्निग्धैः सुखोष्णं
संप्रलेपयेत् ॥ १२ ॥

जलवैत, अण्डके बीज, जौ और गेहूँके सज्जु इन
सबको पीसकर घीसे मिलाकर कुछ गरम करके लेप
करे तो वातज उपदंश नष्ट होता है ॥ १२ ॥

पद्मोत्पलमृणालैश्च ससर्जार्जुनवैतसैः ।
सर्पिः स्निग्धैः समधुकैः पैत्तिकं संप्र-
लेपयेत् ॥ १३ ॥

सफेद कमल, लालकमल, कमलकी नाल, राठ,
अर्जुनकी छाल, वैत और मुलैठी इन्कों एकत्र पीस
कर घृतमे मिलाकर लेप करे तो पित्तज उपदंश शमन
होता है ॥ १३ ॥

सेचयेच्च घृतक्षीरशर्करेक्षुमधूदकैः ।
अथवाऽपि सुशीतेन कषायेण वटादि-
ना ॥ १४ ॥

घी, दूध, मिश्री, ईख, शहद आर जल इन्से
सेचन करनेसे अथवा न्यग्रोधादिगणका काथ बना-
कर अच्छेप्रकारसे शीतल करके सेवन करनेसे पित्तज
उपदंश शांत होता है ॥ १४ ॥

शालाजैकर्णार्थकण्ठधवत्वाग्निभः कफो-
त्थितम् । सुरापिष्टाभिरुष्णाभिस्त-
तैलाभिः प्रलेपयेत् ॥ १५ ॥

सालकी छाल, अजकर्णनामक सालकी छाल, अक्षकर्ण (गजहृद्) की छाल और धवकी छाल इन सबको मदिरामें पीसकर गरम करके तेलमें मिलाकर लेप करनेसे कफजनित उपदंशरोग नष्ट होता है १५

आरग्वधादिकाथेन परिषेकञ्च दापयेत् ॥ १६ ॥

आरग्वधादिगणकी औषधियोंके काथके द्वारा सेचन करनेसे कफजनित उपदंश नष्ट होता है ॥ १६ ॥

निम्ब्वार्जुनाश्वत्थकदम्बशालाजम्बू-वटोदुम्बरवेतसैश्च । प्रक्षालनालेपघृतानि कुर्म्याञ्चूर्णञ्च पित्ताम्रभवोपदंशे ॥ १७ ॥

नीमकी छाल, अर्जुनकी छाल, पीपलकी छाल, कदमकी छाल, सालकी छाल, जामुनकी छाल, वडकी छाल, गूलरकी छाल और वेतकी छाल इनका काथ बनाकर धोनेसे अथवा उपर्युक्त और औषधियोंका चूर्ण बनाकर घृत मिलाकर लेप करनेसे पित्तजनित और रुधिरजनित उपदंशरोग नष्ट होता है ॥ १७ ॥

त्वचोदारुहरिद्रायाः शङ्खनाभिरसाञ्जनम् । लाक्षागोमयनिर्यासं तैलं क्षौद्रं घृतं पयः ॥ १८ ॥ एभिस्तु पिष्टैस्तुल्यांशैरुपदंशं प्रलेपयेत् । व्रणाश्च तेन शाम्यन्ति श्वयथुर्दाह एव च ॥ १९ ॥

दारुहलदीकी छाल, शंखनाभि, रसौत, लाख, गोव-रका रस, तेल, शहद, घी और दूध इन सबको समान भाग लेकर एकत्र पीसकर उपदंशके ऊपर लेप करनेसे व्रण, सूजन और दाह दूर होती है ॥ १८ ॥ १९ ॥

उपदंशद्वयेऽप्येतां प्रत्याख्यायाचरेत् क्रियाम् । तयोरेव च या योग्या वीक्ष्य दोषबलावलम् ॥ २० ॥

त्रिदोषजन्य और रुधिरजन्य दोनो प्रकारके उपदंशमें असाध्य होनेके कारण विना विचारे प्रथमसे ही उसकी चिकित्सा न करने लगे, यदि रोगीका विशेष आम्रह हो तो दोषोंका बलावल विचार कर जो रतमें ढीक हो ऐसी चिकित्सा करे ॥ २० ॥

शस्त्रेणोपचरेद्वापि पाकमागतमाशु च । तमपोह्यमथो सर्पिः क्षौद्रयुक्तैः प्रलेपयेत् ॥ २१ ॥

जो उपदंश पकगया हो तो समयपर तत्काल शस्त्रसे उसका उल्लेखन(भिदन) करे। इस प्रकार उसको चीरकर घी और शहद मिलाकर लेप करदेवे ॥ २१ ॥

वटप्ररोहार्जुनजंबुपथ्या लोभ्रं हरिद्रा च हितः प्रलेपः । सर्वोपदंशेष्ववरोहणार्थं चूर्णञ्च कार्यं विमलाञ्जनेन २२ ॥

वडके अंजुर, अर्जुनकी छाल, जामुनकी छाल, हरड, लोथ और हलदी इन सबको एकत्र पीसकर प्रलेप करनेसे और विमलामाखी (रूपामाखी विशेष) तथा रसौतके चूर्णको उपदंशके व्रणमें भरनेसे सर्व प्रकारका उपदंश नष्ट होजाता है ॥ २२ ॥

त्रिफलायाः कषायेण भृङ्गराजरसेन च । व्रणप्रक्षालनं कुर्यादुपदंशप्रशान्तये ॥ २३ ॥

त्रिफलेके काथके द्वारा अथवा भॉंगरेके रसके द्वारा इससे उपदंशरोगको नष्ट करनेके लिए उपदंशके व्रणोंको धोना चाहिए ॥ २३ ॥

पटोलनिम्बत्रिफलाकिरातकाथं पिबेद्वा खदिरासनाभ्याम् । सगुग्गुलं वा त्रिफलायुतं वा सर्वोपदंशापहरः प्रयोगः ॥ २४ ॥

पटोलपत्र, नीम, त्रिफला और चिरायता इनका काथ बनाकर उसमें खैरसार, विजयसार, गूगल इनका काथ पानेसे अथवा त्रिफलेके काथमें गुग्गुल डालकर पान करनेसे सर्वप्रकारका उपदंश रोग नष्ट होता है ॥ २४ ॥

नीलोत्पलानि कुमुदं पद्मसौगन्धिकानि च । उपदंशेषु चूर्णानि प्रदेहो-यं प्रशस्यते ॥ २५ ॥

नीलकमल, कुमुद, लालकमल और सफेदकमल इन सबका एकत्र चूर्ण करके गाढा प्रलेप करनेसे उपदंशरोग नष्ट होता है ॥ २५ ॥

बन्धूकदलचूर्णेन दाडिमत्वग्रजोऽथवा ।
गुण्डनं तद्गतं शस्तं लेपः पूगफलेन
वा ॥ २६ ॥

दुपहरियाके पत्तोंका चूर्ण अथवा अनारकी छाल
या सुपारीको पीसकर ब्रणके ऊपर लगानेसे उपदंश
रोग नष्ट होता है ॥ २६ ॥

सौराष्ट्रीगैरिकं तुथं पुष्पं काशीश-
सैन्धवम् । लोभ्रं रसाञ्जनं वापि हरि-
तालं मनःशिलाम् ॥ २७ ॥ हरेणु-
कैले च तथा समांशान्यपि चूर्णयेत् ।
तच्चूर्णं क्षौद्रसंयुक्तमुपदंशेषु योजि-
तम् ॥ २८ ॥

फिटकरी, गेरु, नीलाथोथा, हीराकासीस, सैधान-
मक, लोध, रसौत, हरताल, मैतशिल, रेणुका और
इलायची इन सबको समान भाग लेकर एकत्र पीस
कर शहदमे मिलाकर लेप करनेसे उपदंशरोग नष्ट
होता है ॥ २७ ॥ २८ ॥

पुटदग्धं कृतं भस्म हरितालं
मनःशिला । उपदंशविसर्पाणामेत-
द्धानिकरं परम् ॥ २९ ॥

पुटपाककी विधिसे गुन्द्राको जलाकर उसकी भस्म
इरताल और मैतशिल इनको पीसकर शहद या घृतमे
मिलाकर या जलमे पीसकर लेप करनेसे उपदंश
और विसर्पादिरोग नष्ट होते हैं ॥ २९ ॥

दहेत्कटाहे त्रिफलां तां मर्षीं मधुसै-
न्धवम् । उपदंशे प्रलेपोऽयं सद्यो रो-
पयति व्रणम् ॥ ३० ॥

कटाईमें त्रिफलेकी भस्म करके उसमे शहद और
सैधानमक मिलाकर प्रलेप करनेसे उपदंशका व्रण
तत्काल भरजाता है ॥ ३० ॥

तिरीटाञ्जनवज्राह्वकोविदारैभकेशरैः ।
लेपनं पुरुषव्याधौ जलपिष्टैः प्रश-
स्यते ॥ ३१ ॥

लोध, रसौत, तगर, कचनार और नागकेसर इनको
जलमे पीसकर लेप करनेसे उपदंश रोग नष्ट होता
है ॥ ३१ ॥

रसाञ्जनं शिरीषेण पथ्यया वा सम-
न्वितम् । सक्षौद्रं लेपनं योज्यं सर्वा-
ङ्गदमोचनम् ॥ ३२ ॥

रसौत और सिरसकी छाल अथवा रसौत और
हरड इनका चूर्ण करके शहदमे मिलाकर लेप करनेसे
सम्पूर्ण अगोमें प्राप्त हुआ उपदंश नष्ट होता है ॥ ३२ ॥

भाङ्गीसम्भवशिखरिजमूलं भद्रश्रियं
च संपिष्टम् । मनःशिलाश्च मधुना
शमयत्युपदंशमचिरेण ॥ ३३ ॥

भांरगीकी जड़, चिराचिटेकी जड़ और चन्दन
इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे अथवा मैतशिल-
को शहदमे पीसकर लेप करनेसे शीघ्र ही उपदंश
रोग नष्ट होता है ॥ ३३ ॥

जलधौतं प्रयत्नेन लिङ्गोत्थमवचूर्णये-
त् । रोगं कासीसचूर्णेन पुरुषः सुख-
वाञ्छया ॥ ३४ ॥

हीराकसीसको पीसकर जलमें मिलाकर उस
जलसे उपदंशके व्रणको वारंवार धोना चाहिये और
हीराकसीसके चूर्णको उपदंशके व्रणोंपर छिड़कना
चाहिये ॥ ३४ ॥

करवीरस्य मूलेन परिपिष्टेन वारिणा ।
असाध्योऽपि व्रजत्यन्तं लिङ्गोत्था रुक्
प्रलेपनात् ॥ ३५ ॥

करवीरकी जड़को जलमे पीसकर लेप करनेसे असा-
ध्य भी उपदंशरोग और उसकी घोर पीडा तत्काल
शमन होजाती है ॥ ३५ ॥

करञ्जाद्यघृत ।

करञ्जनिम्बासनशालजम्बूवटादिभिः
कल्ककषायसिद्धम् । सर्पिर्निहन्याडु-
पदंशदोषं सदाहपाकश्रुतिपाकयु-
क्तम् ॥ ३६ ॥

करंज, नीम, विजयसार, साल, जामुन और
न्यग्रोधादिगणकी समस्त औषधियाँ इनके साथ और
करकके द्वारा घृतको सिद्ध करे । यह घृत-तत्काल

सर्व प्रकारके उपदंशके नष्ट करता है तथा दाह पाक और स्रावको भी दूर करता है ॥ ३६ ॥

भूनिम्बाद्यघृत ।

भूनिम्बनिम्बत्रिफलापटोलकरञ्जधा-
त्रीखदिरासनानाम् । सतोयकल्कैर्घृ-
तमाशु पक्वं सर्वोपदंशापहरं प्रदि-
ष्टम् ॥ ३७ ॥

चिरायता, नीम, त्रिफला, पटोलपत्र, करंज, आमले, खैरसीर और विजयसार इनके काथ और कल्कसे घृतको पकावे । यह घृत—सर्वप्रकारके उपदंशोंको शीघ्र नष्ट करता है ॥ ३७ ॥

**घृतानि यानि चोक्तानि कुष्ठे नाडी-
त्रणे त्रणे । उपदंशे प्रयोज्यानि सेका-
भ्यञ्जनभोजनैः ॥ ३८ ॥**

कुष्ठरोगपर, नाडीत्रणपर और त्रणरोगपर जो जो घृत कहे हैं वे सब इस उपदंशरोगमें भी सेचन, अभ्यं-
जन और भोजनके द्वारा प्रयोग करने चाहिए ॥ ३८ ॥

आगारधूमाद्यतैल ।

आगारधूमो रजनी सुराकिट्टश्च तै-
स्त्रिभिः । यथोत्तरैः पचेत्तैलं कण्डू-
शोधरुजापहम् ॥ ३९ ॥ शोधनं रो-
पणञ्चैव उपदंशहरं परम् ॥ ४० ॥

घरका धुंआसा १ भाग, हलदी २ भाग और सुरा-
किट्ट ३ भाग लेकर इनके द्वारा तेलको पकावे । यह
तेल—खुजली, सूजन और पीडाको शमन करता है ।
तथा शोधन और रोपण है, एवं उपदंशको नष्ट करने-
वाला है ॥ ३९ ॥ ४० ॥

गोजीतैल ।

गोजीविडङ्गयष्टीभिः सर्वगन्धैश्च सं-
युतम् । एतत्सर्वोपदंशेषु श्रेष्ठं रोपण-
मिष्यते ॥ ४१ ॥

गोजिया, वायविडंग, मुलैठी और समस्त सुगंधित
पदार्थ इनके कल्कके द्वारा तेलको पकावे । यह तेल
सर्व प्रकारके उपदंशके त्रणोंको भरनेके लिए उत्तम
है ॥ ४१ ॥

जम्बूवाद्यतैल ।

जंबूवेतसपत्राणि धात्रीपत्रं तथैव च ।
नक्तमालस्य पत्राणि तद्भूतपद्मात्पला-

नि च ॥ ४२ ॥ बला चातिबलाम्ना-
स्थिमधुकञ्च प्रियङ्गवः । लाक्षा
कालीयकं लोध्रं चन्दनं त्रिवृताह्वया
॥ ४३ ॥ एतान्येकीकृतान्येव वत्समूत्रेण
पेषयेत् । अक्षमात्रयुतैर्द्रव्यैस्तैलप्रस्थं
विपाचयेत् ॥ ४४ ॥ सर्वत्रणहरं तैल-
मेतत्सिद्धं प्रयोजितम् । उपदंशहरं
श्रेष्ठं मुनिभिः परिकीर्तितम् ॥ ४५ ॥

जामुनके पत्ते, वेंतके पत्ते, आमलेके पत्ते, करंजके
पत्ते, कमल, कमोदिनी, खैरंटी, कधी, आमकी गुठली,
मुलैठी, फूलप्रियंगू, लाख, कलम्बक, लोध, चन्दन और
निसोत यह प्रत्येक औषधि एक एक तोला लेकर
वकरेके मूत्रमें पासे । फिर इस, कल्कके द्वारा एक
प्रस्थ तेलको पकावे यह तेल सर्व प्रकारके त्रणोंको
हरनेवाला और सर्व प्रकारके उपदंशके त्रणोंको भर-
नेवाला है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

कोशातकी तैल ।

यस्य लिङ्गस्य मांसन्तु शीर्यते सु-
ष्कशेषतः । तिक्तकोशातकीलम्बा
बीजनागरसाधितम् ॥ ४६ ॥ तैलं
हन्त्यचिराद् घोरं त्रणं दुष्टमनेकधा ४७

कडवी तोरईके बीज, कडवी तोम्बीके बीज और
सोंठ इनके कल्कसे पकाया हुआ तेल अनेक प्रका-
रके दुष्टत्रणोंको शमन करता है । जिसके लिंगका
मांस गल गया हो, केवल अण्डकोश ही बाकी रह गये
हो ऐसा उपदंश भी इस तेलसे आरोग्य हो जाता
है ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

पथ्य ।

सेवेन्नित्यं यवान्नाश्च पानीयं कौपमेव
च । अर्शसां छिन्नदग्धानां क्रियां चात्र
प्रयोजयेत् ॥ ४८ ॥

उपदंशरोगी नित्य जौका भोजन और कुएके जल-
को ही सेवन करे । बवासीर, छिन्न और दग्धत्रणमें जो
चिकित्सा कही है वह सब इसमें भी प्रयोग करनी
चाहिए ॥ ४८ ॥


लिङ्गार्शकी चिकित्सा ।

स्वर्जिकालुत्थशैलेयं सरलं सरसा-
ञ्जनम् । मनःशिलाले च समे चूर्णो
मांसाङ्कुरापहः ॥ ४९ ॥

सज्जी, तूतिया, भूरिछरीला, धूपसरल, रसौत, मैन्-
शिल और हरिताल इन सबको एकत्र पीसकर चूर्ण
बनाकर प्रयोग करनेसे लिगार्श नष्ट होजाता है ॥ ४९ ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां उपदंशनिदान-
चिकित्साधिकार समाप्त ॥ ५५ ॥

अथ शूकदोषरोगाधिकार ।



अक्रमाच्छेफसो वृद्धिं योऽभिवाञ्छ-
ति मूढधीः । व्याधयस्तस्य जायन्ते
दश चाष्टौ च शूकजाः ॥ १ ॥

जो मूर्ख मनुष्य शास्त्रक्रमको त्याग कर लिगको
स्थूल करनेकी इच्छा करता है अर्थात् अनेक प्रका-
रकी विपैली औषधियोंका लेप करता है और सड़े
हुए जलमे होनेवाले शूक नामके छोटे २ कीट
होते हैं उनका लेप करता है उसके अठारह
प्रकारके शूकदोष उत्पन्न होते हैं ॥ १ ॥

सर्षपिकाके लक्षण ।

गौरसर्षपसंस्थाना शूकदुर्भुम्भहेतुका ।
पिटिकाश्लेष्मवाताभ्यां ज्ञेया सर्षपि-
का बुधैः ॥ २ ॥

दुष्ट जलजीवोंका लिगपर लेप करनेसे कफ वात
क्षुपित होकर सफेद सरसोंकी समान जो लिगपर
पिटिका उत्पन्न हो उसको सर्षपिका कहते हैं ॥ २ ॥

अष्टीलाके लक्षण ।

कठिनाविषमैर्भुम्भैर्वायुनाष्टीलिका भ-
वेत् ॥ ३ ॥

छोटे, बड़े और विषम शूकोंका प्रलेप करनेसे वायु
क्षुपित होकर करडी निहाईके समान फुन्सी उत्पन्न
होती है उसको अष्टीला कहते हैं ॥ ३ ॥

ग्रंथितके लक्षण ।

शूकैर्यत्पूरितं शश्वद्ग्रन्थितं नाम तत्क-
फात् ॥ ४ ॥

निरन्तर लिगपर लिगवर्द्धक प्रलेप करनेसे इंद्रि-
यके ऊपर गाँठसी होजाती है उसको ग्रंथित कहते
हैं इसका मुख्य निदान कफ है ॥ ४ ॥

कुम्भिकाके लक्षण ।

कुम्भिका रक्तपित्तोत्था जाम्बवास्थि-
निभा शुभा ।

जामुनकी गुठलीके समान जो सफेद फुन्सी
उत्पन्न हो उसको कुम्भिका कहते हैं इसका मुख्य
निदान रुधिर तथा पित्त है। यह फुन्सी कुम्भीकाफल
(कायफल) के समान होती है इस कारण इसको
कुम्भिका कहते हैं ।

अलजीके लक्षण ।

अलजीलक्षणैर्युक्तामलजीं प्रवितर्क-
येत् ॥ ५ ॥

प्रमेहपिटिकामे जो अलजी पिटिकाके लक्षण कहे
हैं उसप्रकार प्रमेहरहित यह अलजीभी जाननी
अर्थात् उसीके लक्षणोंके समान इसके लक्षण
जानने । इस पिटिकाका मुख्य निदान रुधिर तथा
पित्त है ॥ ५ ॥

मृदितके लक्षण ।

मृदितं पीडितं यत्तु संरब्धं वायुको-
पतः ।

शूकदोष होनेपर लिगको हाथसे पीडित अर्थात्
दबानेसे जो सूजन होती है उसको मृदित कहते हैं ।
इसका मुख्य निदान वात है ।

संमूढपिटिकाके लक्षण ।

पाणिभ्यां भृशसंमूढे संमूढपिटिका
भवेत् ॥ ६ ॥

लेप करनेके पश्चात् जब लिगमे खुजली उठे तब
उसको दोनों हाथसे खूब रगड़नेपर उसमें जो फुन्सी
उत्पन्न होती है उसको संमूढ कहते हैं ॥ ६ ॥

अवमन्थापिडिकाके लक्षण ।

दीर्घा बह्वक्ष्य पिडिका दीर्यन्ते म-
ध्यतरतु याः । सोऽवमन्थः कफासृ-
ग्भ्यां वेदनारोमहर्षकृत ॥ ७ ॥

शूकदोषसे कुपित हुए कफ और रक्तसे लम्बी
लम्बी बहुवसी और बीचमें फूटी हुई फुंसी लिंगमे
उत्पन्न हों, उनमें रोमांच और पीडा हो उसको
अवमन्थ कहते हैं ॥ ७ ॥

पुष्करिकाके लक्षण ।

पिडिकाभिश्चिता या तु पित्तशोणि-
तसम्भवा । पद्मकर्णिकसंस्थाना ज्ञेया
पुष्करिका तु सा ॥ ८ ॥

जो फुन्सी अन्य फुन्सियोंसे व्याप्त और कमलक-
र्णिकाके समान आकारवाली उत्पन्न हो उसको पुष्क-
रिका कहते हैं । यह फुन्सी पित्तके तथा रुधिरके
कोषसे होती है ॥ ८ ॥

स्पर्शहानिके लक्षण ।

स्पर्शहानिं तु जनयेच्छोणितं शूक-
दूषितम् ॥ ९ ॥

जो फुन्सी स्पर्शको न सह सके उसको स्पर्शहानि
कहते हैं यह फुन्सी शूकदोषसे कुपित हुए रुधिरसे
उत्पन्न होती है ॥ ९ ॥

उत्तमाके लक्षण ।

सुद्रमाषोपमारक्ता रक्तपित्तोद्भवा तु
या । व्याधिरेषोत्तमा नाम शूकाजी-
र्णनिमित्तजा ॥ १० ॥

शूकको अत्यन्त सेवन करनेसे शूकज अजीर्ण
होता है उससे रक्त और पित्त कुपित होकर मूँग या
उडदके समान तथा लालरंगकी फुन्सी उत्पन्न होती
है उसको उत्तमा कहते हैं ॥ १० ॥

शतपोनकके लक्षण ।

छिद्रैरणमुखैलिङ्गं चित्तं यस्य समंत-
तः । वातशोणितजो व्याधिः स
ज्ञेयः शतपोनकः ॥ ११ ॥

शूकदोषसे वात और रुधिर कुपित होकर लिंगमे
जो वारीक वारीक छिद्र होजायें उसको शतपोनक
कहते हैं ॥ ११ ॥

त्वक्पाकके लक्षण ।

वातपित्तकृतो ज्ञेयस्त्वक्पाको ज्वर-
दाहकृत ॥ १२ ॥

शूकदोषसे वात पित्त कुपित होकर लिंगकी
त्वचाको पकाते हैं उसमें ज्वर और दाह उत्पन्न
होते हैं उसको त्वक्पाक कहते हैं ॥ १२ ॥

शोणितार्बुदके लक्षण ।

कृष्णैः स्फोटैः सरक्ताभिः पिडिका-
भिर्निपीडितम् । यस्य बस्तिरुजश्चो-
ग्रा ज्ञेयं तच्छोणितार्बुदम् ॥ १३ ॥

कालं फोडे और लाल फुन्सियोंसे लिंग व्याप्त हो
उन फुन्सियोंमें तथा फुन्सियोंके स्थानमें घोर पीडा
हो और बस्ति स्थानमें उग्र पीडा हो उसको
शोणितार्बुद कहते हैं ॥ १३ ॥

मांसार्बुदके लक्षण ।

मांसदोषेण जानीयादर्बुदं मांस-
म्भवम् ।

मांसकी दुष्टतासे लिंगपर मांसका अर्बुद उत्पन्न
हो उसको मांसार्बुद कहते हैं ।

मांसपाकके लक्षण ।

शीर्यन्ते यस्य मांसानि यस्य सर्वा-
श्च वेदनाः । विद्यात्तं मांसपाकन्तु स
र्वदोषकृतं भिषक् ॥ १४ ॥

शूकदोषसे त्रिदोष कुपित होकर मांस पाकको
करते हैं उसमें लिंगका मांस गल जाता है और
अनेक प्रकारकी पीडा होती है ॥ १४ ॥

विद्राधिके लक्षण ।

विद्राधिं सन्निपातेन यथोक्तमभिनि-
दिशेत् ॥ १५ ॥

तीनों दोषोंके कुपित होनेसे लिंगमें विद्राधि उत्पन्न
होती है उसके लक्षण विद्राधिमें कहे हुए सन्निपातकी
विद्राधिके लक्षणोंके समान जानने ॥ १५ ॥

तिलकालकके लक्षण ।

कृष्णानि चित्राण्यथवा शूकानि स-
विषाणि वा । पाचितानि पचन्त्या-
शु मेढं निरवशेषतः ॥ १६ ॥ काला-
नि भूत्वा मांसानि शीर्यन्ते यस्य
देहिनः । सन्निपातसमुत्थांस्तु ता-
न्विद्यात्तिलकालकान् ॥ १७ ॥

काले अथवा चित्र विचित्र अनेक रंगके विष-
शूकोके लेप करनेसे शीघ्र ही सम्पूर्ण लिग पक जाता
है । तब उसका सब मास तिलके समान काला हो
कर गल जाता है, उसको तिलकालक कहते हैं । यह
रोग त्रिदोषके प्रकोपसे होता है ॥ १६ ॥ १७ ॥

असाध्यलक्षण ।

तत्र मांसार्बुदं यच्च मांसपाकश्च यः
स्मृतः । विद्रधिश्च न सिध्यन्ति ये
च स्युस्तिलकालकाः ॥ १८ ॥

उपरक्त अठारह प्रकारके शूकदोषोंमें मांसार्बुद,
मांसपाक, विद्रधि और तिलकालक ये चारों असाध्य
हैं ॥ १८ ॥

शूकदोषकी चिकित्सा ।

शूकदोषेषु सर्वेषु विषघ्नीं कारये-
त्क्रियाम् । विरेचनं प्रयुञ्जीत शोणि-
तस्य च मोक्षणम् ॥ १९ ॥ जलौका-
भिर्हरेद्रक्तं मेढं वा व्यधयेच्छिराम् ।
गुग्गुलं पाययेच्चापि त्रिफलाकाथसं-
युतम् । क्षीरेण लेपसेकांश्च शीतेनैव
च कारयेत् ॥ २० ॥

सर्व प्रकारके शूकदोषोंमें वैद्य विषनाशक चिकि-
त्सा करे । तथा विरेचन देवे और रक्तमोक्षण करावे ।
जौक लगवाकर रुधिर निकलवावे । लिगके बीचमेकी
गिराको वेवे । त्रिफलेके काथमें गुग्गुल डालकर पान
करावे, शीतल दूधके द्वारा प्रलेप और सेचन आदि
कर्म करे ॥ १९ ॥ २० ॥

सर्षपीं लिखितां सूक्ष्मैः कषायैरव-
चूर्णयेत् । तैरेवाभ्यञ्जनं तैलं साध-
येद्गणरोपणम् ॥ २१ ॥ क्रियेयमवम-

त्येऽपि रक्तं स्वाव्यं तथोभयोः । अ-
ष्टीलायां सृते रक्ते श्लेष्मग्रन्थिवदा-
चरेत् ॥ २२ ॥

सर्षपिका नामक शूकदोषको सिहोडे आदिके
पत्तोसे खुरच कर ढाक, मजीठ, पापिल या न्यग्रो-
धादि कपाय द्रव्योंका चूर्ण भर देवे तथा उपर्युक्त
वृक्षोंकी छालके काथ और कल्कके द्वारा तेलको
पकाकर मर्दन करे, इस प्रकार करनेसे व्रण भर जाता
है । यही क्रिया अवमंथमें भी करनी चाहिए और
इन दोनो पिडिकाओंमें रक्तमोक्षण करावे । अष्टीला-
रोगमें रुधिर निकलवा कर कफजग्रंथिके समान
चिकित्सा करे ॥ २१ ॥ २२ ॥

कुम्भिकायां हरेद्रक्तं पक्वायां शोधि-
ते व्रणे । तिन्दुकत्रिफलालोघ्रलेपस्तै-
लञ्च रोपणम् ॥ २३ ॥

कुम्भिकापिडिकामें रक्तमोक्षण करावे और जो
वह पक जाय तो शोधन औषधियोंके द्वारा राध
आदिको साफ करके तेदू, त्रिफला और लोघ इनको
पीस कर लेप करदेवे तथा इन्हीं औषधियोंके कल्कके
द्वारा तेलको पका कर अथवा व्रणरोपक तेलको
लगावे ॥ २३ ॥

अलज्यां हतरक्तायामयमेव क्रिया-
क्रमः ॥ २४ ॥

अलजीनामक पिडिकामें प्रथम रुधिर निकलवा-
कर पश्चात् यही उपर्युक्त क्रिया करनी चाहिए २४ ॥
स्वेदयेद्ग्रन्थितं शश्वन्नाडीस्वेदेन बुद्धि-
मान् । सुखोष्णैरुपनाहैश्च सुस्निग्धै-
रुपनाहयेत् ॥ २५ ॥

ग्रथित नामक पिडिकाको प्रथम स्निग्ध कर पश्चात्
नाडीस्वेदसे स्वेदित करे । सुखोष्ण और स्निग्ध ऐसे
उपनाहका प्रयोग करे ॥ २५ ॥

उत्तमाख्यां तु पिटिकां संछिद्य वडि-
शोद्धृताम् । कल्कैश्चूर्णं कषायाणां
क्षौद्रयुक्तैरुपाचरेत् ॥ २६ ॥

उत्तमापिडिकाको वडिश नामवाले शस्त्रसे उखाड
कर छेदन करे तथा मधुसंयुक्त काथ, कल्क और
चूर्णद्वारा विधिपूर्वक चिकित्सा करे ॥ २६ ॥

क्रमः पित्तविसर्पोक्तः पुष्करीमृदयो-
र्हितः ॥ २७ ॥

पुष्करी और संमूढनाम्क शूकदोषोम पित्तविस-
र्पके समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २७ ॥

त्वक्पाके स्पर्शहान्याश्च सेचयेन्मृ-
दितं पुनः । बलात्तैलेन कोष्णेन म
धुरेश्वोपनाहयेत् ॥ २८ ॥

त्वक्पाक, स्पर्शहानि और मृदित इनमें सेचन
कर्म करे । तथा खिरँटीके काथ और कल्कके द्वारा
तेलको पकाकर मर्दन करे एवं मधुर औषधियोंके
द्वारा उपनाह कर्म करे ॥ २८ ॥

रसक्रिया विधातव्या लिखिता शत-
पोनके । पृथक्पर्ण्यादिसिद्धश्च तैलं
देयमनन्तरम् ॥ २९ ॥

शतपोनकमें प्रथम शब्दसे लिखित करके रसक्रिया
प्रयोग करनी चाहिये और इसके पश्चान् पृथक्पर्ण्या-
दि औषधियोंके द्वारा तेलको पकाकर लगाना चाहि-
ये ॥ २९ ॥

रक्ताविद्राधिवच्चापि क्रियाशोणित-
जेऽर्बुदे । कषायकल्कसर्पीषि तैलं
चूर्णं रसक्रियाम् । शोधने रोपणे
चैव वीक्ष्य वीक्ष्य विचारयेत् ॥ ३० ॥

रक्तज अर्बुदमें रक्ताविद्राधिके समान चिकित्सा
करनी चाहिये । कषाय, कल्क, घृत, तेल, चूर्ण और
रसक्रिया, इनको शोधन और रोपणमें अच्छे प्रका-
रसे देख भाळकर प्रयोग करे ॥ ३० ॥

क्षीरेण लेपसेकांश्च शीतिनैव च का-
रयेत् । प्रयते च यथा चाशु नैति पा-
कं यथा ध्वजम् ॥ ३१ ॥

शीतल दूधके द्वारा लेप और सेचन इत्यादि उप-
चार करे, इसप्रकार करनेसे लिग शीघ्र नहीं पकता
है ॥ ३१ ॥

अर्बुदे मांसपाके च विद्राधौ तिलका-
लके । प्रत्याख्यायं प्रकुर्वीत भिषक्ते-
षां प्रतिक्रियाम् ॥ ३२ ॥

अर्बुद, मांसपाक, विद्राधि और तिलकालक ये
चार पिडिका असाध्य है अतएव इनको छोडकर
शेष शूकदोषोकी चिकित्सा करे अथवा उक्त असाध्य
शूक दोषोकी नवीन अवस्थामे चिकित्सा नहीं करे
प्राचीन होनेपर चिकित्सा करे ॥ ३२ ॥

दावीतैल ।

दावीसुरसयष्ट्याहैर्गृह्णमनिशायुतैः ।
तैलमभ्यञ्जने पाने भेदू रोगं विना-
शयेत् ॥ ३३ ॥

दारुहलदी, तुलसी, सुँलठी, चरका धुँभासा और
हलदी इनके द्वारा तेलको पकाकर अभ्यंग और पान
कर्ममें प्रयोग करनेसे सर्वप्रकारके लिंगरोग दूर होते
हैं ॥ ३३ ॥

गुञ्जाभस्म मषी वाथ हरितालं मनः-
शिला । दावीहरिद्रामधुकं घृतक्षौ-
द्रसमायुतम् । प्रलेपार्थं प्रयुञ्जीत वि-
शुद्धव्रणरोपणम् ॥ ३४ ॥


गुंजाकी भस्म अथवा हरिताल और मैनशिल,
दारुहलदी, सुँलठी, घी और शहद इन सबको
एकत्र मिलाकर प्रलेप करनेसे व्रण शुद्ध होता है और
भरजाता है ॥ ३४ ॥

रसाञ्जनमाह्वयमेतदेव प्रलेपमात्रेण
नयेत्प्रशान्तिम् । सपूतिपूयव्रणशो-
थकण्डूशूलान्वितं सर्वमनङ्गरोगम् ॥ ३५ ॥

केवल एक रसोतका ही लेप करनेसे दुर्गंध, राध,
व्रण, सूजन, खुजली और शूलयुक्त सर्वप्रकारके लिंग-
रोग नष्ट होते हैं ॥ ३५ ॥

इति श्रीवगसेने भापाटीकायां शूकदोषा-
धिकार. समाप्त. ॥ ५६ ॥

अथ कुष्ठरोगाधिकार ।



कुष्ठरोगका निदान ।

विरोधीन्यन्नपानानि द्रवस्निग्धगुरू-
णि च । भजतामागतां छर्दिं वेगां-
श्चान्यान् प्रतिघ्नताम् ॥ ३ ॥ व्याया-
ममतिसन्तापमतिभुक्ता निषेवि-
णाम् । शीतोष्णलङ्घनाहारान् भज-
तामक्रमेण तु ॥ २ ॥ घर्मश्रमभया-
र्त्तानां द्रुतं शीतांबुसंविनाम् । अजी-
र्णाध्यशनानाश्च पञ्चकर्मपचारि-
णाम् ॥ ३ ॥ नवान्नदधिमत्स्यादि-
लवणाम्लनिषेविणाम् । माषमूलक-
पिष्टान्नतिलक्षीरगुडाशिनाम् ॥ ४ ॥
व्यवायं चाप्यजीर्णेश्चै निद्रां वा भ-
जतां दिवा । विप्रान् गुरून्धर्षयतां
पापकर्म च कुर्वताम् ॥ ५ ॥ वाता-
दयस्त्रयो दुष्टास्त्वग्रक्तं मांसमम्बु-
च । दूषयन्ति सकुष्ठानां सप्तको द्र-
व्यसंग्रहः ॥ ६ ॥ अतः कुष्ठानि जा-
यन्ते सप्त चैकादशैव तु ॥ ७ ॥

विरुद्ध (संयोगविरुद्ध, दूधके साथ मछली इत्यादि अथवा समय विरुद्ध या प्रकृतिविरुद्ध) ऐसे अन्नपानोंको सेवन करनेसे, पतले चिकने और भारी अन्नपानोंको सेवन करनेसे, आती हुई वमनके वेगको रोकनेसे तथा अन्यान्य मलमूत्रादिके वेगको रोकनेसे, अधिक भोजन करके व्यायाम करनेसे अथवा अग्नि तथा सूर्यके तापको सेवन करनेसे, सरदी, गरमी, लंघन और आहार इनको कुविधिसे सेवन करनेसे, पसीने आये हुए, श्रमसे थके हुए और भयसे घबड़ाये हुए इन अवस्थाओंमें तत्काल शीतल जलको पीनेसे अथवा शीतल जलमें स्नान करनेसे, अजीर्णमें भोजन करनेसे अथवा भोजनपर भोजन करनेसे, वमन, विरेचन, नस्य, निरूह और अनुवासन वास्त इनके विगडजानेसे, नवीन अन्न, दही, मछली आदिको सेवन करनेसे, नमक, खार और

गुट्टादिषु अन्यन्त सेवन करनेमें, उदर, मूला, विट्टी (पफात्र मिष्टान्न), तिष्ठ, दूध और गुह इनको भक्षण करनेमें, भोजनको अजीर्ण अवस्थामें स्त्रो-प्रसंग करनेमें, दिनमें सोनेमें, प्राशन और गुरुजनो-का अनाश्र करनेमें और पापकर्म करनेमें, वात, पित्त और कफ ये तीनों दोष कुपित होकर त्वचा, रुधिर, मांस और शरीरमें जलको दूषित करके कोंडको उत्पन्न करने हैं । वात, पित्त, कफ, रम, रुधिर, मांस तथा त्वचीका इन सातोंके विगडनेसे कोंड उत्पन्न होता है । वात, पित्त और कफ ये तीनों दोष और रम, रुधिर, मांस तथा त्वचीका यह चार दूष्य कोंडके कारण हैं । उपर कहे हुए सातों पदार्थोंके समुदायसे सात प्रकारका और ग्यारह प्रकारका कोंड उत्पन्न होता है । अठारह ऐसा नहीं कहें, क्योंकि सात और ग्यारह अलग २ संग्रह कहे । सात घटे कोंड और ग्यारह धुत्तकोंड हैं ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥

कुष्ठ उत्पन्न होनेके विशेषकारण ।

तिलतैलकुलित्थांश्च वल्मीकलिङ्ग-
मेव च । माहिषं दधि वृन्ताकं सत्तैते
कुष्ठहेतवः ॥ ८ ॥

तिल, तैल, कुलथी, वल्मीकरोग, लिंगरोग (उप-दंशादिक), भैंसका दही और वैगन ये भी कुष्ठ उत्पन्न होनेके सात कारण हैं अर्थात् इन सात कार-णोंसे भी कुष्ठरोग उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥

प्रकारकथन ।

कुष्ठानि सप्तधा दोषैः पृथग्द्वन्द्वैः
समागतैः । सर्वेष्वपि त्रिदोषेषु व्यप-
देशोऽधिकत्वतः ॥ ९ ॥

सब कुष्ठ सामान्यतासे सात प्रकारके हैं—जैसे कि, भिन्न २ तीन प्रकार, द्वन्द्वज तीन प्रकार और सन्निपातज एकप्रकार, ऐसे सामान्यतासे कुष्ठ सात प्रकारके हैं । किन्तु कुष्ठमात्र सन्निपातज हैं तो भी जिसमें जो दोष अधिक हो उसीसे उसीके समझना चाहिये अर्थात् जिस कुष्ठमें जिस दोषके अधिक लक्षण मिलते हों, उसी दोषका उसको कुष्ठ समझना चाहिये ॥ ९ ॥

कुष्ठके पूर्वरूप ।

अतिश्लक्ष्णकरस्पर्शस्वेदास्वेदविवर्ण-
ता । दाहः कंडूस्त्वचि स्वापस्तोदः
कोठोन्नतिः श्रमः ॥ १० ॥ व्रणानाम-
धिकं शूलं शीघ्रोत्पत्तिश्चिरस्थितिः ।
रूढानामपि रूक्षत्वं निमित्तेऽल्पेऽपि
कोपनम् । रोमहर्षोऽसृजः काण्यं
कुष्ठलक्षणमंत्रजम् ॥ ११ ॥

जिस स्थानमें कुष्ठरोग होनेको होता है वह स्थान
दूरतेसे अत्यन्त चिकना या अत्यन्त खरखरा मालूम
होता है, वहाँ पसीना अधिक आता है अथवा विलकुल
नहीं आता तथा उस जगहका रंग बदलजाय, दाह हो,
खुजली, त्वचामे सुन्नी हो, सुई चुभोने सरीखी पीडा
हो, ददोरे उठें, विना श्रम किये श्रम मालूम हो, व्रणमें
अधिक वेदना हो, व्रण शीघ्र उत्पन्न हो और बहुत
दिनोंतक रहे, भरनेके समय रूक्ष हो जाय और अल्प-
कारणसे कुपित हो, रोमांच हों और रुधिर काला हो
जाता है यह कुष्ठरोगके पूर्वरूप जाननेके ॥ १० ॥ ११ ॥

कपालकुष्ठके लक्षण ।

कृष्णारुणकपालाभं यद्रूक्षं परुषं
तनु । कपालं तोदबहुलं तत् कुष्ठं
विषमं स्मृतम् ॥ १२ ॥

अब महाकुष्ठोमे प्रथम कपालकुष्ठके लक्षण कहते
हैं । कपालकुष्ठके व्रण काले, लाल, कपाल (खोपडे)
के समान, रूखे, कठिन और पतली त्वचावाले एवं
नोचनेसरीखी पीडा हो, यह विषम अर्थात् दुःसाध्य
है इसको कपालकुष्ठ कहते हैं ॥ १२ ॥

औदुम्बरकुष्ठके लक्षण ।

हृग्दाहारागंकंडूभिः परीतं रोमपि-
त्ररम् । उदुम्बरफलाभासं कुष्ठमौदु-
म्बरं वेदेत् ॥ १३ ॥

जिसमें पीडा, दाह, लाली और खुजली हों तथा रोम
पीले रंगके हो और जिसका आकार गूलरके फलके
समान हो उसको औदुम्बरकुष्ठ कहते हैं ॥ १३ ॥

* दूपयन्ति इत्यर्थे इत्य निश्चलत्वादितन्वत् ।
नच. कुर्वन्ति ववर्णं दोषा कुष्ठंशान्तिं तत् ॥

मण्डलकुष्ठके लक्षण ।

श्वेतं रक्तं स्थिरं स्त्यानं स्निग्धमुत्स-
न्नमण्डलम् । कृच्छ्रमन्योन्यसंयुक्तं
कुष्ठं मण्डलमुच्यते ॥ १४ ॥

जिसका रंग सफेद और लाल हो, जो कठिन, गोल,
चिकना और जिसका आकार उठेहुए मण्डलके
समान हो और जो एक दूसरेसे परस्पर मिला हो उस-
को मण्डलकुष्ठ कहते हैं । यह कष्टसाध्य है ॥ १४ ॥

ऋक्षजिह्वकुष्ठके लक्षण ।

कर्कशं रक्तपर्यन्तमन्तःश्यावं सवे-
दनम् । यदृक्षजिह्वासंकाशमृक्षजिह्वं
तदुच्यते ॥ १५ ॥

जो कुष्ठ कर्कश जिसके किनारे लाल हो, बीचमें
काला और लाल मिले हुए रंगका हो, पीडासहित
और रीछके जीभके समान आकारवाला हो उसको
ऋक्षजिह्व कुष्ठ कहते हैं ॥ १५ ॥

पुण्डरीककुष्ठके लक्षण ।

सश्वेतरक्तपर्यन्तं पुण्डरीकदलोपम-
म् । सोत्सेधश्च सरागं च पुण्डरीकं
प्रचक्षते ॥ १६ ॥

जो कुष्ठ सफेद कमलके पत्तेके समान बीचमे
लाल और किनारेपर सफेद हो, कुछ ऊँचाईसहित
और बीचमे किचित् लाल हो उसको पुण्डरीक कुष्ठ
कहते हैं ॥ १६ ॥

सिध्मकुष्ठके लक्षण ।

श्वेतं ताम्रश्च तनु यद्रजोवृष्टं विमुञ्च-
ति । प्रायश्चोरासि तत्सिध्ममलावुकु-
सुमोपमम् ॥ १७ ॥

जो कोढ़ सफेदी लिये लाल रंगका हो, पतली त्वचा-
वाला या रगडनेसे उसमेंसे धूलके समान
छोटे गिरे और लौकीके फलके समान
कुष्ठ कहते हैं । यह विशेष करके
॥ १७ ॥

काकणकुष्ठके लक्षण ।

यत्काकणान्तिकावर्णं सपाकं तीव्र-
वेदनम् । त्रिदोषलिङ्गं तत्कुष्ठं काक-
णं नैव सिध्यति ॥ १८ ॥

जो कुष्ठ घुँघुचीके समान लाल और काले मुख-
वाला हो, पाक और तीव्रपीडायुक्त और तीनों दोषोके
लक्षणोसे युक्त हो उसको काकणकुष्ठ कहते हैं । यह
असाध्य है ॥ १८ ॥

ग्यारह क्षुद्रकोठोंके लक्षण ।

चर्मकुष्ठके लक्षण ।

अस्वेदनं महावास्तु यन्मत्स्यशक-
लोपमम् । तदेव कुष्ठं चर्मार्ख्यं बहु-
लं हस्तिचर्मवत् ॥ १९ ॥

जिस कोठमे पसीना नहीं आता, जिसके चकत्त
बड़े बड़े हो, मछलीकी त्वचाके समान चक्राकार और
अभ्रकके पत्रोंके समान तथा हाथीके चर्मके
समान मोटा और बर्कश हो उसको चर्मकुष्ठ कहते
हैं ॥ १९ ॥

किटिभकुष्ठके लक्षण ।

शावाङ्गिणं खरस्पर्शं परुषं किटिभं
स्मृतम् ।

जो कुष्ठ लाली लिये काला, जिसका स्पर्श ब्रणकी
चटके समान खरखरा और जो रूखा हो उसको
किटिभकुष्ठ कहते हैं ।

वैपादिककुष्ठके लक्षण ।

वैपादिकं पाणिपादस्फुटनं तीव्रवेद-
नम् ॥ २० ॥

जिसमे हाथ और पाँवोंके तलुवे फटजायें तथा अ-
धिक पीडा हो उसको वैपादिक कुष्ठ कहते हैं ॥ २० ॥

अलसककुष्ठके लक्षण ।

कंडूमद्रिः सरागैश्च गण्डैरलसक-
ञ्चितम् ।

जिसमे अत्यंत खुजली चले, लालीयुक्त और छोटी
फुन्सी अधिक हों उसको अलसककुष्ठ कहते हैं ।

दद्रुमंडलकुष्ठके लक्षण ।

सकंडूरागपिठकं दद्रुमण्डलमुद्रतम् २१
जिसमें खुजली सहित लाल फोंटें हों, ऊँचे उठे
हुए और मण्डलाकार गोल हों उसको दद्रुमण्डलकुष्ठ
कहते हैं ॥ २१ ॥

चर्मदलकुष्ठके लक्षण ।

रक्तं सशूलं कंडूमत सस्फोटं दलय-
त्यपि । तच्चर्मदलमाख्यातं संस्प-
र्शासहमुच्यते ॥ २२ ॥

जिसका रंग लाल हो, जिसमें शूल, खुजली और
फोंटोंसे युक्त हो कर चर्म फट जाय और किसी
पदार्थका भी स्पर्श न सह जाय उसको चर्मदलकुष्ठ
कहते हैं ॥ २२ ॥

पामाकुष्ठके लक्षण ।

सूक्ष्मा बह्व्यः पिटिकाः स्राववत्यः
पामेत्युक्ताः कंडूमत्यः सदाहाः ।

जिसमें बहुतसी छोटी छोटी, पीत स्रावयुक्त,
खुजली सहित और दाहयुक्त फुन्सी हों उसको
पामाकुष्ठ कहते हैं ।

कच्छुकुष्ठके लक्षण ।

सैव स्फोटैस्तीव्रदाहैरुपेता ज्ञेया पा-
प्योः कच्छुरुग्रा स्फिजोश्च ॥ २३ ॥

जो वही पामाकी फुन्सी बड़ी बड़ी तीव्र दाह
सहित, हाथोंमें और विशेष करके कमरमे हों तो
उसको कच्छुकुष्ठ कहते हैं ॥ २३ ॥

विस्फोटककुष्ठके लक्षण ।

स्फोटाः श्यावारुणाभासा विस्फोटाः
स्युत्तनुत्वचः ।

जिसके फोड़े काले या लाल रंगके हों और जिनकी
त्वचा पतली हो उसको विस्फोटककुष्ठ कहते हैं ।

शतारुकुष्ठके लक्षण ।

रक्तं श्यावं सदाहार्तिः शतारुः
स्याद्बहुव्रणम् ॥ २४ ॥

जिसका रंग लाल और श्याव हो, दाह और शूल हो, तथा जिसमें बहुतसे फोड़े हो उसको शतारुकुष्ठ कहते हैं ॥ २४ ॥

विचर्चिकाके लक्षण ।

सकंडूपिटिका श्यावा बहुस्त्रावा विचर्चिका ॥ २५ ॥

जिसमें खुजलीयुक्त, धूसररंगकी और स्यावयुक्त फुन्सी हो उसको विचर्चिका कहते हैं ॥ २५ ॥

वातजादिकुष्ठोंके लक्षण ।

खरं श्यावारुणं रूक्षं वातकुष्ठं सवेदनम् । पित्तात् प्रकुपितं दाहराग-
स्त्रावान्वितं मतम् ॥ २६ ॥ कफात्
क्लेदिघनं स्निग्धं सकण्डूशैत्यगौरवम् ।
द्विलिङ्गं द्वन्द्वजं कुष्ठं त्रिलिङ्गं सान्नि-
पातिकम् ॥ २७ ॥

वातोत्पन्नकुष्ठ-खरखरा, श्यावरंगका, लालरंगका, रूखा और पीडायुक्त होता है । पित्तकी अधिकतासे दाहयुक्त, लालरंगका और स्रवता है । कफकी अधिकतासे गीला, घन, चिकना, खुजली और शीतलतायुक्त तथा भारी होता है । जिसमें दो दोषोंके लक्षण मिलते हो उसको द्वन्द्वज और जिसमें तीन दोषोंके लक्षण मिलते हों उसको सान्निपातज कुष्ठ कहते हैं ॥ २६ ॥ २७ ॥

सप्तधातुगतकुष्ठोंके लक्षण ।

रसगतकुष्ठके लक्षण ।

त्वक्स्थे वैवर्ण्यमङ्गेषु कुष्ठे राक्ष्यश्च
जायते । त्वक्पाको रोमहर्षश्च स्वेद-
स्यातिप्रवर्त्तनम् ॥ २८ ॥

रसगतकुष्ठमें शरीरका वर्ण विवर्ण होजाता है, शरीरमें रूखापन, त्वचा पकजाती है, रोमांच हो और पसीना अधिक आता है ॥ २८ ॥

८ कितनेक वैद्य ऐसा मानते हैं कि, त्वचाके स्पर्शका ज्ञान नहीं रहना, रोमांचका खडा होना और पसीनाका अधिक आना यह रुधिरगत कुष्ठमें होता है अर्थात् यह लक्षण रुधिरगत कुष्ठमें होते हैं ।

रक्तगतकुष्ठके लक्षण ।

कंडूर्विपूयकश्चैव कुष्ठे शोणितसंश्रि-
ते ॥ २९ ॥

रुधिरगतकुष्ठमें खुजली और पीव अधिकतासे बढ़ती है ॥ २९ ॥

मांसगतकुष्ठके लक्षण ।

दौर्गन्ध्यं सर्वदेहेऽस्मिन् पूयोऽतिक्रम-
यस्तथा । गात्राणां भेदनं वापि कुष्ठे
मांससमाश्रिते ॥ ३० ॥

ॐ मांसगतकुष्ठमें सम्पूर्ण शरीरमें दुर्गन्ध, अत्यन्त राध बहे और शरीर अनेक प्रकारसे फटजाता है ॥ ३० ॥

मेदोगतकुष्ठके लक्षण ।

कौण्ठ्यं गतिक्षयोऽङ्गानां संभेदः क्षत-
सर्पणम् । मेदःस्थानगते लिङ्गं प्रागु-
क्तानि तथैव च ॥ ३१ ॥

मेदगतकुष्ठमें हाथ टेढ़े होजायँ, चलनेमें असमर्थ हो जाय, हडफूटन हो, घावोंका फैलजाना और पूर्वोक्त रक्तमांसगतकुष्ठोंके लक्षण होते हैं ॥ ३१ ॥

अस्थिमज्जागतकुष्ठके लक्षण ।

नासाभङ्गोऽक्षिरागश्च क्षतेषु कृमि-
सम्भवः । स्वरोपघातश्च भवेदस्थि-
मज्जासमाश्रिते ॥ ३२ ॥

अस्थि और मज्जागतकुष्ठमें नाक बैठजाय, आंखें लाल होजायँ, घावमें कृमि पड जायँ और स्वरभंग होजाता है ॥ ३२ ॥

शुक्रार्तिवगतकुष्ठके लक्षण ।

दम्पत्योः कुष्ठबाहुल्याद्दुष्टशोणि-
तशुक्रयोः । यदपत्यं तयोर्जातं ज्ञेयं
तच्चापि कुष्ठितम् ॥ ३३ ॥

कुष्ठकी अधिकतासे जिन स्त्री और पुरुषोंका वीर्य्य और आर्तिव दूषित होता है उस दूषित वीर्य्य और

८ अन्यान्यग्रन्थोंमें मांसगत कुष्ठके निम्नलिखित लक्षण लिखे हैं श्लोक-बाहुल्य वक्त्रशोषश्च कार्कश्य पिडिकोद्भयम् । तोद स्फोटस्थिरत्व च कुष्ठे मांससमाश्रिते ।

आर्त्तवसे जो सन्तान उत्पन्न होती है वह भी कुष्ठी होती है । भावार्थ यह है कि, वीर्यमें तथा रजमें प्राप्त हुवा कुष्ठ सन्तानको भी कुष्ठी करता है रसादि धातुगत जो कुष्ठोके लक्षण कहे हैं वे सब इसमें जानने ॥ ३३ ॥

साध्यासाध्यविचार ।

साध्यं त्वग्रक्तमांसस्थं वातश्लेष्मा-
धिकश्च यत् । मेदासि द्वन्द्वजं याप्यं
वर्ज्यं मज्जास्थिसंश्रितम् ॥ ३४ ॥
कृमिनृद्धाहमन्दाग्निसंयुक्तं यत्रिदो-
षजम् । प्रभिन्नं प्रसृताङ्गश्च रक्तनेत्रं
हतस्वरम् ॥ पञ्चकर्मगुणातीतं कुष्ठं
हन्तीह कुष्ठिनम् ॥ ३५ ॥

त्वचा रस रक्त और मांसगतकुष्ठ साध्य है तथा कफाधिक्य और वाताधिक्य कुष्ठ भी साध्य है। मेदो-
गत और द्वन्द्वज कुष्ठ याप्य है । तथा मज्जा, अस्थि और शुक्रगतकुष्ठ असाध्य है । एवं जिस कुष्ठमें कीड़े पडजायें, वमन, तृपा, दाह और मंदाग्नि आदि उपद्रव हो और जो त्रिदोषोत्पन्न हो वह कुष्ठ भी असाध्य है । जो कुष्ठ फूटकर बहता है, जिस कुष्ठमें रोगीके अंग फटने लगजायें और अधिक स्राव हो, नेत्र लाल होगये हों, जिसका स्वर क्षीण हो गया हो और जिसके वमन विरेचनादि पचकर्म कुछ भी गुण नहीं करते वह रोगी अवश्य मरजाता है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

प्रधानदोषके लक्षण ।

वातेन कुष्ठं कापालं पित्तेनोदुम्बरं
कफात् । मण्डलाख्यं विचर्ची च ऋ-
क्षाख्यं वातपित्ततः ॥ ३६ ॥ चर्म-
ककुष्ठं किटंभं सिध्माऽलसविपादि-
काः । वातश्लेष्मोद्भवाः श्लेष्मपित्ता-
द्द्रुशतारुषी ॥ ३७ ॥ पुण्डरीकं स-
विस्फोटं पामाचर्मदलं तथा । सर्वैः
स्यात्काकणं पूर्वं त्रिकं दद्रुसकाकण-
म् ॥ पुण्डरीकर्क्षजिह्वे च महाकुष्ठा-
नि सर्वं तु ॥ ३८ ॥

कपोलकुष्ठ वातज, औदुम्बर पित्तज, मण्डल और विचर्चीका कफज, ऋक्षजिह्व वातापित्तज.

चर्मकुष्ठ, किटिभ, सिन्ध, अलसक और विपादिका वातकफज, दद्रु, जनारु, पुण्डरीक, विस्फोटक, पामा और चर्मदल ये कफपित्तप्रधान एवं काकणकुष्ठ त्रिदोष-
ज होते हैं । पहले कपाल, औदुम्बर और मण्डल ये तीन एवं दद्रु, काकण, पुण्डरीक और ऋक्षजिह्व ये चार ऐसे सब मिलाकर सात महाकुष्ठ हैं ॥ ३६ ॥ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

श्वित्र लक्षण ।

कुष्ठैकसम्भवं श्वित्रं किलासं चारुणं
भवेत् । निर्दिष्टमपरिष्ठावं त्रिधातू-
द्भवसंश्रयम् ॥ ३९ ॥

जो निदान कुष्ठका कहा है वही निदान श्वित्र कोड-
का भी जानना । रुधिरके आश्रयसे किलास कहा जाता है इसकारण किलास भी श्वित्रका भेद है, श्वित्र सफेद होता है और किलास लाल होता है, कोड टपकता है और श्वित्र नहीं टपकता है, और श्वित्र त्रिदोषसे होता है । कोड रसादि समस्त धातुओंमें रहता है । और श्वित्र रुधिर, मांस तथा मेदमें रहता है । कुष्ठ और श्वित्रमें इतना ही अन्तर है ॥ ३९ ॥

दोषभेदसे लक्षणभेद ।

वाताद्रूक्षारुणं पित्तात्ताम्रं कमलप-
त्रवत् । सदाहं रोमविध्वंसि कफा-
च्छेत्तं घनं गुरु ॥ ४० ॥ सकंदूरं क्र-
माद्रक्तमांसमेदस्सु चादिशेत । व्रणे-
नैवेदगुभयं कृच्छं तच्चोत्तरोत्तरम् ॥ ४१ ॥

वातसे श्वित्र रूखा व लाल हांता है और रुधिर-
में रहता है । पित्तसे उत्पन्न हुवा श्वित्र कमलपत्रके समान बीचमें सफेद तथा अन्तमें लाल होता है, दाहयुक्त रोमोंको नष्ट करता है और मांसमें रहता है । कफसे उत्पन्न हुआ श्वित्र सफेद होता है तथा पुष्ट, भारी, खुजली सहित और मेदमें रहता है । श्वित्रदोषसे उत्पन्न हुआ हो अथवा व्रणसे उत्पन्न हुआ हो तो भी दोषोंके भेदानुसार उसका वर्ण ऊपरहीके माफिक होता है । वातजनित श्वित्रसे पित्तजनित श्वित्र विशेष भारी होता है और पित्त-
जनित श्वित्रसे कफजनित श्वित्र विशेष भारी होता है ॥ ४० ॥ ४१ ॥

श्वित्रकी साध्यासाध्यता ।

अशुक्लरोमा बहुलमसंश्लिष्टमथो
नवम् । अनग्निदग्धजं साध्यं श्वित्रं व-
र्ज्यमतोऽन्यथा ॥ ४२ ॥

जिस श्वित्रकुष्ठमे काले रोम हो, श्वित्रके मण्डल पतले होकर परस्पर मिले हो, नवीन हो, अग्निके जलनेसे न उत्पन्न हुआ हो, ऐसा श्वित्रकुष्ठ साध्य है और इससे विपरीत असाध्य है ॥ ४२ ॥

गुह्यपाणितलौष्ठेषु जातमप्यचिरन्त-
नम् । वर्जनीयं विशेषेण किलासं
सिद्धिमिच्छता ॥ ४३ ॥

गुदास्थान, लिग, योनि, हाथ, पाँवोंके तलुवे और होठोंमें उत्पन्न हुआ ऐसा श्वित्रकुष्ठ यदि बहुत नवीन भी हो तो भी यशकी इच्छा करनेवाला वैद्य उसकी चिकित्सा न करे ॥ ४३ ॥

सांसर्गिक रोग ।

प्रसङ्गाद्वात्रसंस्पर्शान्निःश्वासात्सह-
भोजनात् । एकशय्यासनाच्चापि व-
स्त्रमाल्यानुलेपनात् ॥ ४४ ॥ कुष्ठं
कण्डूश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च ।
औपसर्गिकरोगाश्च संक्रामन्ति नरा-
न्नरम् ॥ ४५ ॥

अब संसर्गसे संसर्गी रोगोंको कहते हैं, परस्पर प्रस-
गसे अर्थात् मैथुनादि या सदैव साथ रहना, शरीरसे शरीरका आलिंगन करना, परस्पर दूसरेके श्वाससे श्वास लगाना, एक साथ भोजन करना, एक शय्या पर सोना, एक आसनपर बैठना, तथा पहिना हुआ कपडा पहरना, धारण की हुई मालाको धारण करना, लगाये हुए चन्दनादि अनुलेपोंको लगाना, इत्यादि संसर्गके कारणोंसे कुष्ठ, खुजली, शोष और नेत्राभिष्यन्दादि तथा इनके समान अन्यान्य रोग भी एक मनुष्यसे दूसरे मनुष्यके शरीरमें प्राप्त होते हैं ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

कुष्ठरोगकी चिकित्सा ।

वातोत्तरेषु सर्पिर्वमनं श्लेष्मोत्तरेषु
कुष्ठेषु । पित्तोत्तरेषु मोक्षां रक्तस्य
विरेचनं चोत्तमम् ॥ ४६ ॥

वाताधिक्य कुष्ठमें प्रथम घृतपान, कफाधिक्य कु-
ष्ठमें वमन और पित्ताधिक्य कुष्ठमें रक्तमोक्षण और
विरेचन हितकारी है ॥ ४६ ॥

घृतं महानीलमुशन्ति वाते पित्ते म-
हातित्तकमेव तज्ज्ञाः । तैलन्तु शै-
रीषमुशन्ति कुष्ठे श्लेष्मात्मकेऽभ्यञ्ज-
नपानयोगे ॥ ४७ ॥

वातोल्वणकुष्ठमें महानील घृत, पित्तोल्वण कुष्ठमें
महातित्त घृत और कफोल्वण कुष्ठमें शैरीषतैल अ-
भ्यञ्जन और पानकर्ममें प्रयोग करना चाहिये
॥ ४७ ॥

प्रच्छनैर्वा जलौकाभिः शृङ्गचलाबु-
शिराव्यधैः । स्निग्धस्य मोक्षयेत् कु-
ष्ठे दुष्टरक्तं पुनः पुनः ॥ ४८ ॥

कुष्ठ रोगीको स्निग्ध करके पँछनेके द्वारा, अथवा
जौकके द्वारा या शिंगीके द्वारा, या तोम्बीके द्वारा
शिरावेध करके बारंबार दुष्टरुधिरको निकाले ॥ ४८ ॥

स्रुतरक्ते हते दोषे स्नेहैः संशमिते-
ऽनिले । रसायनानि प्राश्याश्च प्रश-
स्ताः कुष्ठिनामतः ॥ ४९ ॥

कुष्ठरोगमें रुधिरके निकालने पर दोषोंका हरण हो
जाने पर वातका प्रकोप होता है अतएव उस समय
उस वातको शमन करनेके लिये स्नेहपान करावे फिर
रसायन और प्राश्य सेवन करावे ॥ ४९ ॥

वचावासापटोलानि निम्बस्य फ-
लिनीत्वचः । कषायो मधुना पीतो
वान्तकृन्मदनान्वितः ॥ ५० ॥

वच, अडूसा, पटोलपत्र, नीम और फूलाप्रयंगू
इनका काथ बनाकर उसमें मैनफल और शहद डाल
कर पान करनेसे वमन होजाता है ॥ ५० ॥

विरेचनं प्रयोक्तव्यं त्रिवृदन्तीफलत्रि-
कैः ॥ ५१ ॥

इस रोगमें निसोत, दंती और त्रिफला इनके
द्वारा विरेचन करावे ॥ ५१ ॥

ये लेपाः कुष्ठानां प्रयुञ्जन्ते निर्गता-
स्रदोषाणाम् । संशोधिताशयानां
सद्यः सिद्धिर्भवति तेषाम् ॥ ५२ ॥

जिनका दूषित रुधिर निकाला गया हो और
आशय जिनका शुद्ध किया गया हो ऐसे कुष्ठोंपर
जो लेप प्रयोग किये जाते हैं वे शीघ्र ही सिद्धिको
देते हैं ॥ ५२ ॥

पथ्या करञ्जसिद्धार्थनिशावल्गुससै-
न्धवैः । विडङ्गसहितैः पिष्टैर्लेपो
मूत्रेण कुष्ठजित् ॥ ५३ ॥

हरड, करंज, सरसों, हलदी, वावची, सैधानमक
और वायविडंग इनको गोमूत्रमे पीसकर लेप करनेसे
कुष्ठ रोग नष्ट होता है ॥ ५३ ॥

एलाकुष्ठविडङ्गानि शताह्वा चित्रको
वचा । दन्तीरसाञ्जनश्चौभिलेपः कुष्ठ-
विनाशनः ॥ ५४ ॥

इलायची, कूठ, वायविडंग, सौंफ, चीता, वच, दंती
और रसोत इनको पीसकर लेप करनेसे कुष्ठरोग
नष्ट होता है ॥ ५४ ॥

मनःशिलाले मरिचानि तैलमार्क
पयः कुष्ठहरः प्रदेहः । करञ्जबीजैड-
गजः सकुष्ठो गोमूत्रपिष्टश्च वरः प्र-
देहः ॥ ५५ ॥

मैनशिल, इलायची, कालीमिरच, तैल और आक-
का दूध इनको एकत्र मिलाकर लेप करनेसे कुष्ठरोग
नष्ट होता है । अथवा करंजके बीज, चकवडके बीज
और कूठ इनको गोमूत्रमे पीसकर लेप करनेसे
कुष्ठ रोग नष्ट होता है ॥ ५५ ॥

धात्रीस्तुहीसर्जरसचक्रमर्दतुषोदकैः ।
कच्छुदद्रुहरो लेपः कण्डूत्वग्दोषना-
शनः ॥ ५६ ॥

आमले, थूहर, राल, और चकवड इनको काँजीमें
पीसकर लेप करनेसे कच्छुदद्रु, खुजली और समस्त
वचाके विकार नष्ट होते हैं ॥ ५६ ॥

शृङ्गाटककटीमूलं हपुषा ब्रह्मचा-
रिणी । निपीतं शमयत्याशु दद्रुरो-
गमसंशयम् ॥ ५७ ॥

सिंघाडे, काकडाशिगीकी जड, हाऊवेर और
भारंगीकी जड इनको एकत्र पीसकर पान करनेसे
दद्रुरोग शीघ्र नष्ट होता है ॥ ५७ ॥

पर्णानि पिष्ट्वा चतुरंगुलस्य तत्रेण
पर्णान्यथ काकमाच्याः । तैर्लिप्तमा-
त्रस्य नरस्य कुष्ठान्युद्धर्त्तयेदश्वहन-
च्छदैश्च ॥ ५८ ॥

अण्डके पत्तोंको तक्रमे पीसकर अथवा मकोयके
पत्तोंको तक्रमे पीसकर लेप करनेसे वा कनेरके
पत्तोंको पीसकर मालिस करनेसे कुष्ठरोग नष्ट होता
है ॥ ५८ ॥

एडगजकुष्ठसैन्धवसौवीरसर्षपैः कृमि-
घ्नैश्च । कृमिसिध्मदद्रुमण्डलकुष्ठानां
नाशनो लेपः ॥ ५९ ॥

पमार, कूठ, सैधानमक, कांजी, सरसों और
वायविडंग इनके एकत्र पीसकर लेप करनेसे
कृमि, सिध्म दद्रुमण्डल और सर्वप्रकारके कुष्ठ
नष्ट होते हैं ॥ ५९ ॥

त्रिफलामुस्तकं पिण्डी दावीशम्या-
कवत्सकाः । सिद्धार्थं कुष्ठतुच्चेभिः
स्नानपानप्रलेपनम् ॥ ६० ॥

त्रिफला, नागरमोथा, तगर, दारुहल्दी, अमलतास,
कुडेके बीज और सफेद सरसो इन सबको स्नान पान
और प्रलेपमें प्रयोग करनेसे कुष्ठरोग नष्ट होता है ।

कासमर्दकमूलानि सौवीरेण तु पेष-
येत् । किटिभसिध्मदद्रूणि जयेदेतत्प्र-
लेपनात् ॥ ६१ ॥

कसौदाकी जडको काँजीमें पीसकर लेप करनेसे
किटिभ, सिध्म और दाद नष्ट होते हैं ॥ ६१ ॥

बीजानि वा मूलकसर्षपाणां लाक्षा-
रजन्या प्रपुनाटबीजम् । श्रीविष्टक-
व्योषविडङ्गकुष्ठं पिष्ट्वा च मूत्रेण सु-
लेपनं स्यात् ॥ दद्रूणि सिध्मान् कि-

टिभानि पामां कपालकुष्ठं विषमं च
हन्यात् ॥ ६२ ॥

मूलीके बीज, सरसो, लाख, हलदी, दारुहलदी, चकवडके बीज, सरलका गोंद, त्रिकुटा, वायविडंग और कूठ इनको गोमूत्रमे पीसकर लेप करनेसे दद्रु, सिध्म, किटिभ, पामा, कपाल और सर्व प्रकारके दुःसाध्य कुष्ठ नष्ट होते हैं ॥ ६२ ॥

आरग्वधस्य पत्राणि चारणालेन ले-
पयेत् । दद्रुकिटिभकुष्ठानि हन्ति
सिध्मानमेव च ॥ ६३ ॥

अमलतासके पत्ताको काँजीमें पीसकर लेप करनेसे दद्रु, किटिभ, कुष्ठ और सिध्म ये सब कुष्ठ रोग नष्ट होते हैं ॥ ६३ ॥

प्रपुत्राटस्य बीजानि धात्री सर्जरस-
स्तुही । सौवीरपिष्टं दद्रूणामेतदुद्व-
त्तनं परम् ॥ ६४ ॥

पमारके बीज, आमले, राल और थूहर इनको सिरकेमें पीसकर दादके ऊपर लगानेसे दाद शीघ्र नष्ट हो जाते हैं ॥ ६४ ॥

स्तुहीरसः सालतरोस्तुषेण सचक्र-
मर्दोऽप्यभयाविमिश्रः । पानीयमद्रेण
तदम्बुपिष्टो लेपः कृतो दद्रुमृगेन्द्र-
सिंहः ॥ ६५ ॥

थूहरके दूधमे सालके तृणको पीसकर तथा चक-
वड और हरडको काँजीमे पीसकर लेप करनेसे या
नीमको जलमें पीसकर लेप करनेसे दाद शीघ्र नष्ट
होजाते हैं ॥ ६५ ॥

चक्रमर्दकबीजश्च मूलकांबुप्रपेषितम् ।
दद्रूघ्नं लेपनं कुर्याच्छिशुमूलत्वचो-
ऽथवा ॥ ६६ ॥

चकवडके बीजोंको मूलीके रसमें पीसकर लेप कर-
नेसे दाद नष्ट होते हैं अथवा सहिजनके जडकी छाल-
को पीसकर लेप करनेसे दाद दूर होते हैं ॥ ६६ ॥

चक्रमर्दकबीजानि जीरकश्च समा-
शकम् । स्तोकं सुदर्शनामूलं दद्रुकु-
ष्ठविनाशनम् ॥ ६७ ॥

चकवडके बीज और जीरा दोनों समान भाग
और कुछ थोड़ीसी सुदर्शनकी जड इन सबको एकत्र
पीसकर लेप करनेसे दद्रुकुष्ठ नष्ट होता है ॥ ६७ ॥

दूर्वाभयासैन्धवचक्रमर्दकुठेरकाः का-
ञ्जिकतक्रपिष्टाः । त्रिभिः प्रलेपैरपि-
बद्धमूलं दद्रूश्च कंडूश्च विनाश-
यन्ति ॥ ६८ ॥

दूब, हरड, सैधानमक, चकवड और वनतुलसी
इनको एकत्र काँजी और तक्रमे पीसकर लेप करे,
इस प्रकार केवल तीन दिन या तीन प्रलेप करनेसे
वद्धमूल दद्रुरोग और खुजली दूर होती है ॥ ६८ ॥

तृणकपत्रमपि दारुणं दद्रुरोगश्च प्रघ-
र्पयोगेन । प्रशमयति तान्विचित्रं भा-
गैन्द्रीभवं यदि गृहीतम् ॥ ६९ ॥

पूर्व दिशाकी ओर उत्पन्न हुए ताडके पत्ताको
लेकर पीसकर दादके ऊपर घिसनेसे अत्यन्त दारुण
दाद भी दूर होता है ॥ ६९ ॥

समूलपत्रस्तम्बस्य तृणकस्य तु घर्ष-
णात् । भक्षणाद्वापि शाम्यन्ति दद्रु-
सिध्मविचर्चिकाः ॥ ७० ॥

ताडकी जड, पत्ते और स्तम्बको लेकर दाद पर
घिसनेसे अथवा भक्षण करनेसे दाद शीघ्र नष्ट
हो जाते हैं ॥ ७० ॥

शिखिरित्सेन तु पिष्टं मूलकबीजं
प्रलेपतः सिध्म । क्षारेण वा कदल्या
रजनीं मिश्रेण नाशयति ॥ ७१ ॥

मूलीके बीजोंको चिरचितके रसमें पीसकर लेप
करनेसे सिध्मकुष्ठ नष्ट होता है । अथवा केलेके
खारको हलदीमे मिला कर लेप करनेसे सिध्मकुष्ठ
नष्ट होता है ॥ ७१ ॥

कुठं मूलकबीजं त्रियङ्गवः सर्षपाः
सदुरालभाः । एतद् देशरषट्कं नि-
हन्ति चिरकालजं सिध्म ॥ ७२ ॥

कूठ, मूलीके बीज, फूलत्रियंगु, सर्षप, नि-
धमासा इन सबको एकत्र पीसकर चक्रमर्द
वहुत पुराना भी सिध्मरोग नष्ट होजाता है ॥ ७२ ॥

गन्धपाषाणमिश्रेण यवक्षारेण लेपितम् । सिध्म नाशमुपैत्याशु कटु-
तैलयुतेन च ॥ ७३ ॥

गंधक और जवाखार इनको एकत्र पीसकर कडवे तेलमें मिलाकर लेप करनेसे सिध्मकुष्ठ शीघ्र ही नष्ट होता है ॥ ७३ ॥

कासमर्दकबीजानि मूलकानां तथैव च । गन्धपाषाणमिश्राणि सिध्मानां परमौषधम् ॥ ७४ ॥

कसौदीके बीज, मूलीके बीज और गंधक इन तीनोंको एकत्र मिलाकर लेप करनेसे सिध्मरोग नष्ट होता है ॥ ७४ ॥

बीजं मूलकजं निम्बपत्राणि सितसर्षपाः । गृहधूमश्च संपेष्य जलेनाङ्गं प्रलेपयेत् ॥ ७५ ॥ उद्वर्त्य नवनीतेन क्षालयेदुष्णवारिणा । त्र्यहादनेन सिध्मानि शाम्यन्त्याशु शरीरिणाम् ॥ ७६ ॥

मूलीके बीज, नीमके पत्ते, सफेद सरसों और घरका धुआसा इन सबको एकत्र जलमें पीसकर लेप करे, पश्चात् साफ करके नैनीधीका उबटन करे और गरम जलसे प्रक्षालन करे, इसप्रकार तीन दिन तक करनेसे सिध्म रोग नष्ट होते हैं ॥ ७५ ॥ ७६ ॥

लाक्षाश्रीविष्टकं कुष्ठं हरिद्रि गौरसर्षपाः । व्योषं मूलकबीजानि प्रपुत्राटफलानि च ॥ ७७ ॥ एतान्यम्लप्रपिष्टानि कुष्ठेषूद्वर्तनं परमं । सिध्मानां किटिभानाश्च दद्रूणाश्च विशेषतः ॥ ७८ ॥

लाख, सरलका गोद, कूठ, हलदी, दारु हलदी, सफेद सरसो, त्रिकुटा, मूलीके बीज और पमारके बीज इन सबको कांजीमें पीसकर उबटन करनेसे सिध्म, किटिभ और विशेष करके दद्रुकुष्ठ नष्ट होता है ॥ ७७ ॥ ७८ ॥

मयूरकक्षारजले सप्तकृत्वः परिस्सुते । सिद्धं ज्योतिष्मतीतैलमभ्यङ्गात्सिध्मनाशनम् ॥ ७९ ॥

चिरचितेके क्षारके जलको सातवार टपकाकर फिर उसके द्वारा मालकांगनीके तेलको पकाकर मालिस करनेसे सिध्मरोग नष्ट होता है ॥ ७९ ॥

प्रपुत्राटार्कदुग्धाग्निदन्तीजन्तुघ्नसैन्धवैः । गृहधूमनिशायुग्मसिंहीफलयुतैः समैः ॥ लेपः समस्तकुष्ठघ्नः सुप्तिवैवर्ण्यनाशनः ॥ ८० ॥

पमारके बीज, आकका दूध, चीता, दन्ती, वाय-विडंग, सैधानमक, घरका धुआसा, हलदी, दारुहलदी और कटेरीके बीज इन सबको एकत्र पीस कर लेप करनेसे सर्वप्रकारके कोढ़, सुप्ति और विवर्णता दूर होती है ॥ ८० ॥

प्रलेपोद्वर्तनस्नानपानभोजनकर्मसु । शीलितं खादिरं वारि सर्वत्वग्दोषनाशनम् ॥ ८१ ॥

खैरके जलको प्रलेप, उद्वर्तन, स्नान, पान और भोजन कर्ममें प्रयोग करनेसे सर्वप्रकारके त्वचाके दोष नष्ट होते हैं ॥ ८१ ॥

दह्यमानाच्च्युतं कुम्भे समूलखदिराद्रसम् । साज्यधात्रीरसक्षौद्रं हन्यात् कुष्ठं रसायनम् ॥ ८२ ॥

खैरकी जड़को एक घड़ेमें भरकर पुटपाककी विधिसे पकावे, पश्चात् उसके रसको निचोड़कर उसमें घी, आमलोका रस और शहद मिलाकर सेवन करे तो यह रसायन कुष्ठरोगको अवश्य नष्ट करती है ॥ ८२ ॥

निम्बपत्रशतं पिष्ट्वा निम्बामलकमेव च ॥ ८३ ॥ श्वेतकरवीरमूलं कुटजकरञ्जौ त्वचो दाव्याः । सुमनः प्रवालयुक्तो लेपः कुष्ठापहः सिद्धः ॥ ८४ ॥

१०० नीमके पत्ते पीसकर फिर उसमें नीम, आमले, सफेद कनेरकी जड़, कुडेकी छाल और करजकी छाल, पुष्प, और अंकुर सहित दारुहलदी इन सबको एकत्र पीसकर लेप करनेसे सिध्मकुष्ठ नष्ट होता है ॥ ८३ ॥ ८४ ॥

गुडूचीत्रिफलादावीं काथो मूत्राण्वारिभिः । त्वग्दोषघ्नशोथघ्नः पीतो मासश्च गुग्गुलुः ॥ ८५ ॥

गिलोय, त्रिफला और दारुहलदी इनका काथ बनाकर सेवन करनेसे अथवा गूलकको एक महीने तक गोमूत्र और गरमजलके साथ सेवन करनेसे त्वचाके विकार और त्रणशोथ नष्ट होता है ॥ ८५ ॥

खदिराष्टक ।

खदिरत्रिफलानिम्बपटोला मृतवासकैः । अष्टकोऽयं जयेत् कुष्ठं कण्डूविस्फोटकानि च ॥ विसर्पपामाकिटिभशीतपित्तमसूरिकाः ॥ ८६ ॥

खैर, त्रिफला, नीम, पटोलपत्र, गिलोय और अड्डसा इन आठो ओषधियोंको समान भाग लेकर इनका काथ बनाकर सेवन करनेसे कण्डू, विस्फोटक, विसर्प, पामा, किटिभ, शीतपित्त और मसूरिकारोग नष्ट होता है ॥ ८६ ॥

नवकषाय ।

त्रिफलानिम्बपटोलं मञ्जिष्ठारोहिणीवचारजनी । एष कषायोऽभ्यस्तो निहन्ति कफपित्तजं कुष्ठम् ॥ ८७ ॥

त्रिफला, नीम, पटोलपत्र, मजीठ, कुटकी वच और हलदी इनका काथ बनाकर सेवन करनेसे कफपित्तजनित कुष्ठ नष्ट होता है ॥ ८७ ॥

निम्बादिमहाकषाय ।

निम्बैरण्डदुरालभाऽर्भकवचामूर्वाहरिद्राद्वयं त्रायन्ती त्रिफला पटोलदहनद्रेकामृता भाङ्गिभिः ॥ काकोदुम्बरिकाकरञ्जखदिरैः शाखोटसत्च्छदैर्व्याघ्रीसिंहिशिरीषवेतसकणाभूनिम्बशक्राह्वयैः ॥ ८८ ॥ प्रापुत्राटकवाकुचीकुशजटामातङ्गकृष्णानलैः पाठापर्पटकेन्द्रवारुणिवृषादन्तीत्रिवृच्चन्दनैः ॥ मञ्जिष्ठाऽमययासवासकटुकाराजद्रुमग्रन्थिकैस्तुल्यांशैः सुरभीजलेन पिवतां सिद्धं कषायं नृणाम् ॥ ८९ ॥ कंडूदुम्बरपुण्डरीकलसकाः कुष्ठामयाः पापजा नश्यन्ति हुतमेव दारुणतराः प्रोद्धयमानाऽन-

लः । ज्वालादग्धप्रतप्तकाश्चनसमान्यङ्गानि राजन्ति च काथोऽयं मुनिभिर्दयालुनिपुणैरुक्तो नृणां हेतवे ॥९०॥

नीम, अण्डकी जड, घमासा, (पियावाँसा), वच, मूर्वा, हलदी, दारुहलदी, त्रायमाण, त्रिफला, पटोलपात, चीता, बक्रायन, गिलोय, भारंगी, कटूमर, करंज, खैर, सिंहोडा, सतवन, बडी कटेरी, कटेरी, सिरसकी छाल, वेत, पीपल, चिरायता, इन्द्रजौ, चकवड, वावची, कुशाकी जड, गजपीपल, भिलावे, पाठ, पित्तपापडा, इन्द्रायन, अड्डसा, दन्ती, निसोत, चन्दन, मजीठ, कूठ, जवासा, विसौटा, कुटकी, अमलतास और पीपलामूल इन सबको समान भाग लेकर काथ बनाकर गोमूत्रके साथ पान करनेसे कण्डू (खुजली), उदुम्बर कुष्ठ, पुंडरीक और अलसकादि समस्त पापजनित कुष्ठरोग नष्ट होते हैं । जिसप्रकार फूकीहुई अग्नि समस्त काष्ठादिकको भस्म करदेती है । इसको सेवन करनेसे सम्पूर्ण अंग अग्निसे सन्तप्त सुवर्णके समान सुशोभित होते हैं । इस काथको मनुष्योंपर दया करके प्राचीन मुनियोंने कहा है ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥

मञ्जिष्ठादिमहाकषाय ।

मञ्जिष्ठारिष्टवासात्रिफलदहनकं द्वे हरिद्रे गुडूची भूनिम्बो रक्तसारं सखदिरकटुकावाकुची व्याधिपातः । मूर्वादन्तीविशालाः कृमिरिपुजाटिलात्रायमाणाः सपाठाः श्यामाऽनन्तापटोलाः समरिचमगधाः साधितोऽयं कषायः ॥ ९१ ॥ पतितो हन्यात्समस्तान् सकलतनुगतान् रक्तजान्वै विकारान् । कंडूविस्फोटकादिनलसकिटभकाश्चित्रपामादिदोषान् ॥ ९२ ॥

मजीठ, नीम, अड्डसा, त्रिफला, चीता, हलदी, दारुहलदी, गिलोय, चिरायता, लाल खैर, खैर, कुटकी, वापची, अमलतास, मूर्वा, दन्ती, इन्द्रायण, वायविडंग, वालडड, त्रायमाण, पाठ, कालीनिसोत, अनन्तमूल, पटोलपत्र, कालीमिरिच और पीपल इन सबका काथ बनाकर सेवन करनेसे समस्त शरीरगत त्वचाके विकार, समस्त रुधिरके विकार, कण्डू,

द्विस्पोटकादि रोग, अलम्बक, क्वाटिभ, श्वित्रकुष्ठ और पासादि समस्त कुष्ठरोग नष्ट होते हैं ॥ ९१॥९२ ॥

उदयमार्कण्डमहाकषाय ।

श्यामाभृताखादिरसारशिरीषशिशु-
त्रिलेयसर्जसुरसासुरसिन्धुवारैः ।
श्यानाकरञ्जकारिकर्णवचाविशाला
भल्लातवेतसवरावृषसप्तपर्णैः ॥ ९३ ॥
क्राकादनीफलककेरुककण्टकारीकं-
डूकरीकुटजकेशरकर्णिकारैः । ककौ-
टकार्ककरमर्दकदम्बनिम्बजंघुनिशा
तिनिसकेशरशारिवाभिः ॥ ९४ ॥
गन्धोपलानलशिलाजतुकुन्दराजी-
राजीवकेशरशटीप्रपुनाटचूर्णम् । अ-
ष्टावशेषितजलं सुरभीजलेन काथं
विधाय पिवतो व्यथितेन्द्रियस्य ॥
॥९५॥ सर्वाङ्गसादपरिपोटनतोदभेद-
दाहघ्नणस्फुटनसुप्तिविदीर्णभावैः । वै-
पादिकाहुँदविवर्णविशीर्णवर्णघ्राणां-
घ्रिपाणिघनघर्घरघोरनादेः ॥ ९६ ॥
गम्भीरपाककुथितं कृमिजातपूति-
प्यास्रविस्रतनुगन्धिविसन्धिदग्धम् ।
दुर्वारदारुणमुदुम्बरकुष्ठशोथमल्पै-
दिनैः प्रशममेति महान्तमुग्रम् ॥ ९७ ॥

कालीनिसोत, गिलोय, खैरसार, सिरस, सहिज-
नेकी छाल, भूरिछरीला, राल, तुलसी, देवदारु, स-
म्हाल, श्यानाक, करंज, हस्तिकर्णपलाज, वच,
इद्रायन, भिलोवे, वेत, त्रिफला, अडूसा, सतवन,
काँआठाडी, (कधी) कंठी, कौँछ, कुडा, नागकशर
काँडल, बाँझककोडा, आक, करौंदा, कदम्ब, नीम,
जासुन, हल्दी, तिरिच्छ, केशर, सारिवा, हंसपत्री,
शर्बंग, नरमल, शिलाजीत, कुन्द, कमल, कमलके-
शर, कचूर और पमारक वीज ये सब औषधि
समान भाग लेकर कूट लेवे, फिर इन सबको
अठगुने गोमूत्रमे पकावे जब पकते पकते आठवाँ
भाग जल घेप रहजाय तब उतार कर छान लेवे ।
इस काथको कुष्ठरोगीके पीनेसे शरीरके सब अंगोंकी

अवसन्नता, तोडने सरीखी पीडा, दाह, व्रण, फटना,
सुन्नो, विदीर्ण होना, वैपादिका, अर्बुद, विवर्ण, कान
नासिका पाँव और हाथोंका गलना, घनके समान
घर घर घोर शब्द, गम्भीरपाक, कुथित,
कृमियुक्तव्रण, दुर्गंध राध, रुधिर और अत्यन्त दुर्ग-
धयुक्त व्रण, अग्निदग्ध, दुर्निवार, दारुण, उदुम्बर-
कुष्ठ, शोथ और अत्यन्त उग्र कुष्ठ बहुत शीघ्र थोडे
दिनोंमें ही गमन होने हैं ॥ ९३-९७ ॥

पटोलखदिरारिष्टत्रिफलाकृष्णवेत्रक-
म् । तिक्ताशनः पिवन् काथं कुष्ठी
कुष्ठाद्व्यपोहति ॥ ९८ ॥

पटोलपत्र, खैर, नीम, त्रिफला, कालावेत, कुटकी
और विजयसार इन सब औषधियाको समान भाग
लेकर काथ बनाकर पान करनेसे कुष्ठ रोग नष्ट होता
है ॥ ९८ ॥

काकोदुम्बरिकारिष्टविडङ्गव्योषवा-
सकम् । कल्कं पीत्वा जयेत् कुष्ठं कुट-
जत्वक् सितांबुना ॥ ९९ ॥

कटूमर, नीम, वायविडंग त्रिकुटा और अडूसा
इनका कल्क बनाकर पान करनेसे अथवा कुडकी
छालको पीसकर मिश्रीके शर्वतके साथ सेवन कर-
नेसे कुष्ठरोग नष्ट होता है ॥ ९९ ॥

विडङ्ग बाकुची कृष्णा पथ्या वाराह-
लाङ्गली । त्रिफला सगुडा चैषां भो-
दकाः कुष्ठनाशकाः ॥ १०० ॥

वायविडंग, वापची, पीपल, हरड, वाराहीकंद,
कलिहारी, त्रिफला और गुड इन सबको एकत्र कूट
पीसकर मोदक बनावे । इन मोदकोंको सेवन करनेसे
कुष्ठरोग नष्ट होता है ॥ १०० ॥

अवलगुजाद्धीजकर्ष पिवेदुष्णेन वारि-
णा । भोजनं क्षीरसर्पिभ्यां सर्वकुष्ठ-
हरं परम् ॥ १०१ ॥

वापचीके एक तोला परिमाण वीजोंको लेकर
गरम जलके साथ सेवन करे और इसपर घृत दूधके
साथ भोजन करे, यह प्रयोग सब प्रकारके कुष्ठोंको
नष्ट करता है ॥ १०१ ॥

तिलाज्यत्रिफलाक्षौद्रव्योषभल्लातश-
र्कराः । वृष्याः सप्तसमा मेध्याः कु-
ष्ठहाः कामचारिणः ॥ १०२ ॥

तिल, घी, त्रिफला, गृहद, त्रिकुटा, भिलावे और
मिश्री ये सातो एकत्र मिलेहुए अत्यन्त वृष्य, मेधा-
जनक, कुष्ठनाशक और कामकी इच्छा करनेवाले
मनुष्योंको अत्यन्त हितकारी हैं ॥ १०२ ॥

निंबस्य स्वरसं वापि सेव्यमानो य-
थाबलम् । जीर्णे घृतान्नं भुञ्जति स्व-
ल्पयूषोदकेन च ॥ अपि क्षीणशरी-
रोऽपि दिव्यरूपी भवेन्नरः ॥ १०३ ॥

अथवा नीमके स्वरसको वलानुसार सेवन करे
और जब औषधि जीर्ण हो जाय तब घृतके साथ और
कुछ थोड़ेसे यूषोदकके साथ भोजन करे । इसको
सेवन करनेसे क्षीण शरीरवाला भी मनुष्य दिव्य
शरीरको धारण करनेवाला होता है ॥ १०३ ॥

इन्द्राशनस्य पत्रं मधुना सितया च
सर्पिषा युक्तम् । खादेदेशेषकुष्ठनाश-
करमस्मात्परं नास्ति ॥ १०४ ॥

भागके पत्तोंको या कुडाके और विजयसारके
पत्तोंको शहद, घी और मिश्रीके साथ सेवन करनेसे
सर्व प्रकारके कुष्ठ नष्ट होजाते हैं ॥ १०४ ॥

अमृता वाऽभयाव्योषवह्वचरुष्करबा-
कुची । केशराजाः क्रमाद्वृद्धाः कुष्ठ-
घ्रास्तैलपिण्डिकाः ॥ १०५ ॥

गिलोय, हरड, त्रिकुटा, चीता, भिलावे, वापची,
और कुकुरभांगरा इन सबको क्रमसे एक भाग २
भाग ३ भाग ऐसे एकत्र पीसकर तेलमें मिलाकर
पिंडी बनावे । इसको व्यवहार करनेसे कुष्ठ रोग नष्ट
होता है ॥ १०५ ॥

पञ्चाह्वयां समाक्षीकां सस्नेहां वापि
चूर्णिताम् । तैलयुक्तां लिहेत् कुष्ठमा-
रोग्यमचिराद्भवेत् ॥ १०६ ॥

अथवा उपर्युक्त औषधियोंको एकत्र पीस कर
घीमें स्निग्ध करके शहदमें मिला कर तेलके साथ
सेवन करनेसे बहुत दिनोंका पुराना कुष्ठ भी नष्ट
होता है ॥ १०६ ॥

कुष्ठपर लेप ।

विषवरुणहरिद्राचित्रकागारधूममद-
नमरिचमूर्वाक्षीरमर्कस्तुहीभ्याम् ।
दहति पतितमात्रात् कुष्ठजाती-
रशेषाः कुलिशमिव सरोषाच्छक्रह-
स्ताद्विमुक्तम् ॥ १०७ ॥

विष, वरना, हलदी, चीता, धरका घुंआसा,
मैनफल, कालीमिरच, मूर्वा, आकका दूध और थूह-
रका दूध इन सबको एकत्र पीस कर लगानेसे ही
सर्वप्रकारके कुष्ठ नष्ट होते हैं ॥ १०७ ॥

चक्राह्वीजं स्नुक्क्षीरं भावितं मू-
त्रसंयुतम् । रवितप्तं हि किञ्चित्तु ले-
पनं किटिभापहम् ॥ १०८ ॥

चक्रवडके बीजोंको थूहरेके दूधमें भावना देकर
गोमूत्रके साथ मिलाकर कुछ देर धूपमें रख कर लेप
करनेसे किटिभकुष्ठ नष्ट होता है ॥ १०८ ॥

पिप्पलीपूतिकायस्थाकुष्ठगोपित्तचि-
त्रकैः । लेपं सम्यक् प्रशंसन्ति किटि-
भघ्नं चिकित्सकाः ॥ १०९ ॥

पीपल, दुर्गंध करंज, हरड, कूठ, गोपित्त और
चीता इन सबको एकत्र पीस कर लेप करनेसे किटि-
भकुष्ठ नष्ट होता है ॥ १०९ ॥

गोमूत्रवारिसंपिष्टैः शिलाकाशीश-
तुत्यकैः । लेपः किटिभवीसर्पकुष्ठ-
नाशाय पूजितः ॥ ११० ॥

मैनशिल, कसास और नीलाथोथा इनको गोमूत्र
या जलमें पीस कर लेप करनेसे किटिभ और विसर्प
तथा सर्वप्रकारके कुष्ठ नष्ट होते हैं ॥ ११० ॥

राजिकागुडयुक्तेन सैन्धवेन प्रयोजि-
तम् । विडालचर्मणा बद्धं नाशं चर्म-
दलं व्रजेत् ॥ १११ ॥

राईको गुडमें मिला कर सैन्धनमकके साथ बिला-
वके चमड़ेके द्वारा बाँधनेसे चर्मदलकुष्ठ नष्ट
होता है ॥ १११ ॥

वचया श्वेतया नाशं याति चर्मदलं
द्रुतम् । लेपादिन्द्रयवैर्वापि गोमूत्रप-
रिषेपितैः ॥ ११२ ॥

सफेद वचका लेप करनेसे अथवा इन्द्रजौको गोमू-
त्रमे पीसकर लेप करनेसे चर्मदलकुष्ठ नष्ट होता
है ॥ ११२ ॥

सलिले चाम्पेशी तु किञ्चित्सिन्धु-
समन्विता । ताम्रपात्रे विनिर्घृष्टा
लेपश्चर्मदलापहा ॥ ११३ ॥

आमकी गुठलीको कुछ सैधनमकके साथ मिला
कर तौवेके पात्रमें घिस कर लेप करनेसे चर्मदलकुष्ठ
नष्ट होता है ॥ ११३ ॥

शैलेयकम्पिप्लकयष्टिकाहाः सौराष्ट्रि-
कासर्जरसोत्पलानि । शिला च चूर्णो
नवनीलयुक्तः कुष्ठे स्रवत्यभ्यधिकः
प्रदिष्टः ॥ ११४ ॥

भूरिछरीला, कवीला, मुलेठी, फिटकरी, राल,
कमल और मनशिल इन सबको एकत्र नैनीवीमें
मिला कर लेप करनेसे अत्यन्त स्रवता हुवा कुष्ठ भी
शमन होता है ॥ ११४ ॥

स्तुक्काण्डे सर्षपात्कल्कः कुक्कुकान-
लपाचितः । लेपाद्विचर्चिकां हन्ति
रागवेग इव त्रपाम् ॥ ११५ ॥

धृहरके काँडेमें सरसोंका कल्क भरकर कोयलोंकी
अग्निमें पकावे, उसका लेप करनेसे विचर्चिका रोग
नष्ट होता है जिसप्रकार प्रीतिका वेग लज्जाको नष्ट
कर देता है ॥ ११५ ॥

स्तुक्काण्डे शुषिरे दग्ध्वा गृहधूमं स-
सैन्धवम् । अन्तर्धूमं तैलयुक्तं लेपा-
द्वन्ति विचर्चिकाम् ॥ ११६ ॥

धृहरके काँडेमें घरका धुआँ आर सैधानमक भर
कर पुटपाककी विधिसे पकावे, फिर उसमें तेल
मिला कर लेप करे तो विचर्चिकारोग नष्ट होता है
॥ ११६ ॥

मधुसिद्धकसैन्धववृतगुडमहिषाक्षसा-
लनिर्यासम् । गैरिकमेतत्पक्वं पाद-
स्फुटनापहं सिद्धम् ॥ ११७ ॥

मोम, सैधानमक, घी, गुड, गूगल, राल और
गेरु इन सबको एकत्र पका कर सेवन करनेसे
पादस्फोट दूर होता है ॥ ११७ ॥

पिष्ट्वा जातीफलं लेपाद्विनिहन्ति
विपादिकाम् । तद्वत्सर्जरसं क्षौद्रति-
लतैलसमन्वितः ॥ ११८ ॥

जायफलको पीस कर लेप करनेसे विपादिकारोग
नष्ट होता है अथवा राल, शहद और तिलका तेल
इनको एकत्र मिला कर लेप करनेसे विपादिकारोग
नष्ट होता है ॥ ११८ ॥

नारिकेलोदके न्यस्तास्तण्डुलाः पू-
तितां गताः । लेपाद्विपादिकां हन्ति
चिरकालानुबन्धिनीम् ॥ ११९ ॥

चावलोको नारियलके जलमें भिजो देवे, जब
वह अच्छेप्रकारसे फूलजाय और उनमें दुर्गंध आने
लगे तब पीसकर लेप करनेसे बहुत दिनोंका विपादि-
कारोग नष्ट होता है ॥ ११९ ॥

धतूरतैल ।

धतूरबीजकल्केन माणकक्षारवारि-
णा । कटुतैलं विपक्वन्तु द्रुतं हन्या-
द्विपादिकाम् ॥ १२० ॥

धतूरके बीजोंके कल्क और मानकन्दके क्षारज-
लके द्वारा कडवे तैलको पका कर व्यवहार करनेसे
विपादिकारोग नष्ट होता है ॥ १२० ॥

अवलगुजं कासमर्दं चक्रमर्दं निशा-
युतम् । मणिमन्थेन तुल्यांशं मस्तु-
काञ्जिकपेपितम् ॥ १२१ ॥ कच्छुं
कंडूं जयत्युग्रांसिद्ध एष प्रयोगराट् १२२

वापची, कसौदी, चकवड, हलदी और सैधान-
मक इन सबको बराबर लेकर दहीके तोंड और
काँजीमें पीसकर लेप करनेसे कच्छु और अत्यन्त
उग्र कण्डू नष्ट होती है ॥ १२१ ॥ १२२ ॥

कोमलसिंहास्यदलं सनिशं सुरभी-
जलेन संपिष्टम् । दिवसत्रयेण नियतं
शमयाति कच्छुं विलेपनतः ॥ १२३ ॥

अङ्गुलके कोमल पत्ते और हलदीको गोमूत्रमे पीसकर तीन दिनतक लेप करनेसे कच्छुरोग नष्ट होता है ॥ १२३ ॥

**हरिद्राकल्कसंयुक्तं गोमूत्रस्य पलद्ध्यम् । पिवेत्ररः कामचारी कच्छूपा-
माविनाशनम् ॥ १२४ ॥**

गोमूत्र आठ तोले लेकर उसमे हलदीका कल्क मिलाकर पान करनेसे कच्छु और पामारोग नष्ट होता है ॥ १२४ ॥

**शिवाहरिद्रागुडहृदनानां तुल्यं वि-
भागं मसृणं प्रपिष्य । संप्राश्य तोयं
तदनुप्रपीय जयेद्गणानां प्रभवं सना-
तनम् ॥ १२५ ॥**

हरड, हलदी, गुड और नीम इन सबको समान भाग लेकर खूब चारीक पीसकर जलके साथ पान करनेसे बहुत दिनोंके पुराने ब्रण भी नष्ट हो जाते हैं ॥ १२५ ॥

श्रीवासघृत ।

**श्रीवासकं सर्जरसं लोध्रं कम्पिल्लकं
तथा । मनःशिला यवानी च गन्ध-
पाषाणमेव च ॥ १२६ ॥ पलिकैश्चूर्-
णितैरेतैर्घृतप्रस्थं प्रयोजयेत् । सूर्य्या-
शुपक्रमभ्यङ्गाद् घोरां कच्छूं व्यपो-
हति ॥ १२७ ॥**

गन्धविरोजा, राल, लोध, कवीला, मैनगिल, अजवायन और गन्धक प्रत्येक औषधिका चूर्ण चार चार तोले लेकर एक प्रस्थ घृतको सूर्यकी धूपमें पकावे । इसकी मालिश करनेसे कच्छुरोग नष्ट होता है ॥ १२६ ॥ १२७ ॥

सिन्दूराद्यतैल ।

**सिन्दूरगुगुलुरसाञ्जनसिक्थलुत्थैः क-
ल्कीकृतैश्च कटुतैलमिदं विपक्वम् ।
कच्छूं स्रवत्पिठिकिकामथवाविशु-
ष्कामभ्यञ्जनेन सकृदुद्धरति प्रस-
ह्य ॥ १२८ ॥**

सिन्दूर, गुगुल, रसौत, मोम और नीलाथोथा इनके कल्कके द्वारा कड़वे तेलको पकावे । इस तेलकी मालिश करनेसे कच्छु (खुजली) बहता हुआ पिडिका अथवा सूखी खुजली ये सब नष्ट हो जाते हैं ॥ १२८ ॥

बृहत्सिन्दूराद्यतैल ।

**सिन्दूरं चन्दनं मांसी विडङ्गं रजनी-
द्वयम् । प्रियंगुपद्मकं कुष्ठं मञ्जिष्ठाख-
दिरं वचा ॥ १२९ ॥ जात्यर्कं त्रिवृता
निम्बं करञ्जं विषमेव च । कृष्णा चि-
त्रकलोधश्च प्रपुत्राटं च संहरेत् ॥ १३० ॥
श्लक्ष्णपिष्टानि सर्वाणि योजयेत्तैलमा-
त्रया । अभ्यङ्गेन प्रयोज्यं तद्वर्ण-
कृतं कुष्ठनाशनम् ॥ १३१ ॥ पामां
विचर्चिकां कच्छूं विसर्पं विषमेव च ।
रक्तपित्तोत्थितान् हन्ति रोगानिवं-
विधान् बहून् । सिन्दूराद्यमिदं तैल-
मधिभ्यां निर्मितं पुरा ॥ १३२ ॥**

सिन्दूर, चन्दन, वालछड, वायविडंग, हलदी, दारुहलदी, फूलप्रियंगु, पद्माख, कूठ, मजीठ, खैर, वच, चमेली, आक, निसौत, नीम, करंज, विप, पीपल, चीता, लोध और पमारके बीज इन सबको समान भाग लेकर चारीक पीसकर तेलमें पकावे । इस तेलकी मालिश करनेसे वर्ण उज्ज्वल होता है एवं कुष्ठरोग नष्ट होता है । तथा पामा, विचर्चिका, कच्छु, विसर्प, विप और अनेक प्रकारके रक्तपित्त-जनित रोग नष्ट होते हैं । यह सिन्दूराद्य तैल पहिले अग्निनाकुमारोने निर्माण किया है ॥ १२९ ॥ ॥ १३० ॥ १३१ ॥ १३२ ॥

**निशासुधारग्वधकाकमाचीपत्रैः स-
दावीप्रपुत्राटबीजैः । तत्रेण पिष्टैः
कटुतैलमिश्रैः पामादिषूद्रर्तनमेतदि-
ष्टम् ॥ १३३ ॥**

हलदी, थूहर, अमलतासके पत्ते, मकोयके पत्ते, दारुहलदी, और पमारके बीज इन सबको एकत्र तक्रमे पीस कर कड़वे तेलमें मिलाकर लेप करनेसे पामा और विपादिकारोग दूर होते हैं ॥ १३३ ॥

गोशकृत् सिन्धुसंयुक्तं रजनीमाक्षि-
केण तु । वृष्ट्वा प्रलेपने योज्यं पामा-
कच्छूविनाशनम् ॥ १३४ ॥

गोवर, सैधानमक, हलदी और शहद इन सबको एकत्र मिलाकर अच्छे प्रकारसे घिसकर लेप करनेसे पामा और कच्छुरोग नष्ट होता है ॥ १३४ ॥

सैन्धवं चक्रमर्दन्तु सर्षपं पिप्पलीं
तथा । पेषयेदारनालेन पामाकंठूवि-
नाशनम् ॥ १३५ ॥

सैधानमक, चक्रवड, सरसों और पीपल इनको काँजीमे पीसकर लेप करनेसे पामा और कण्डूरोग नष्ट होता है ॥ १३५ ॥

मांसीचन्दनशम्याककरञ्जारिष्टसर्ष-
पम् । यष्टीकुटजदाव्यब्दं हन्ति क-
ण्डूमयं गणः ॥ १३६ ॥

वालछड, चन्दन, अमलतासके पत्ते, करंज, नीमके पत्ते, सरसो, मुलैठी, कुडेकी छाल, दारुहलदी और नागरमोथा इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे कण्डूरोग नष्ट होता है ॥ १३६ ॥

जीरकस्य पलं पिष्ट्वा सिन्दूराद्धपलं
तथा । कटुतैलं पचेदाभ्यां सद्यः पा-
माहरं परम् । वृद्धवैद्योपदेशेन पाच्यं
तैलं पलाष्टकम् ॥ १३७ ॥

जीरा ४ तोले और सिन्दूर २ तोले लेकर इनके कलकके द्वारा कडवं तेलको पकावे । इस तेलका लेप करनेसे तत्काल पामारोग नष्ट होता है । यहाँ वृद्ध वैद्योके उपदेशसे आठ पल तेल पकाना चाहिए ॥ १३७ ॥

अर्कतैल ।

अर्कपत्रसैः पक्कं रजनीकल्कसंयुतम् ।
कटुतैलं हरेत्तूर्णं पामाकच्छूविचर्चि-
काम् ॥ १३८ ॥

आकके पत्तोके स्वरसके द्वारा हलदीके कलकको कडवे तैटमे पकावे । इस तेलको सेवन करनेसे पामा, कच्छू और विचर्चिकारोग नष्ट होता है ॥ १३८ ॥

त्रिफलाद्यगुटिका ।

त्रिफलारूपकरलोहैः सवलगुजभृङ्गलां-
गलीव्योषैः । सगुडैर्वराहकन्दैः प-
लिकैरेकत्र संमिश्रैः ॥ १३९ ॥ गुटि-
कां प्रकल्प्य खादेदेकैकामक्षसंमितां
प्रातः । कुष्ठं दद्रुकिलासं जित्वा वर्षेण
निर्वलीपलितः । जीवति वर्षशतं वै
दीप्तहुताशो युवेव सोत्साहः ॥ १४० ॥

त्रिफला, भिलावे, लोह, वापची, भोंगरा, कलि-
हारी, त्रिकुटा, गुड और वाराहीकन्द ये प्रत्येक औषधि चार चार तोले लेकर कूट पीसकर एक एक तोलेकी गोलियाँ बनालेवे । प्रतिदिन एक गोली प्रातःकाल भक्षण करे । यह गोली-कुष्ठ, दद्रु और किलास तथा वली और पलित इन सब रोगोंको एक वर्षमे नष्ट कर देती है । इन गोलियोंके प्रभावसे उत्साह सम्पन्न होकर युवाके समान अत्यन्त दीप्त अभिसंयुक्त एकसौ वर्ष तक जीता रहता है ॥ १३९ ॥ ॥ १४० ॥

शशाङ्गलेखादिलेह ।

शशाङ्गलेखा सविडङ्गसारा सपिप्प-
लीका सहुता समूला । सायोमला
सामलका सतैला सर्वाणि कुष्ठानि
निहन्ति लीढा ॥ १४१ ॥

वापची, वायविडंग, पीपल, चीतेकी जड, लोहे-
का मल, आमले और तेल इन सबको एकत्र मिला-
कर चाटनेसे सर्वप्रकारके कुष्ठरोग नष्ट होते हैं ॥ १४१ ॥

त्रिफलाद्यमोदक ।

त्रैफलस्य तु चूर्णस्य पलानि दशप-
ञ्चकम् । सप्त चैव विडङ्गानां लोहचू-
र्णं पलद्वयम् ॥ १४२ ॥ शतं भ्रूत-
कानाञ्च पलानि दश बाकुची । शि-
लाजतुपलाद्धं तु द्वे पले गुग्गुलोस्त-
था ॥ १४३ ॥ पलं पुष्करमूलस्य प-
लाद्धं पलसैन्धवम् । सचित्रकं समरि-
चं पिप्पलीविश्वभेषजम् ॥ १४४ ॥

त्वक्पत्रं कुंडुमं मुस्तं कार्षिकानुपक-
ल्पयेत् । यावन्त्येतानि चूर्णानि ता-
वत् खण्डं प्रदापयेत् ॥ १४५ ॥ प-
लिकान्मोदकान्कृत्वा प्रातरुत्थाय
नित्यशः । एकैकं भक्षयेत्प्राज्ञो यथेष्टं
चात्र भोजनम् ॥ १४६ ॥ कुष्ठान्यष्टाद-
शानीहं प्लीहगुल्मभगन्दरान् । अशी-
तिं वातजान् रोगांश्चत्वारिंशच्च पै-
त्तिकान् ॥ १४७ ॥ विंशतिं श्लेष्मि-
कांश्चैव संस्पृष्टान् सान्निपातिकान् ।
शालाक्यगतरोगांश्च शिरोक्षिभ्रूग-
तांस्तथा ॥ १४८ ॥ कण्ठतालुगतां-
श्चैव जिह्वायामुपजिह्वकाम् । ऊर्ध्वज-
त्रुगते रोगे भुक्तस्योपरिदापयेत् १४९ ॥
शरीरे दापयेत् पूर्वमौदरे मध्यभो-
जने । निर्दिष्टरोगाञ्छमयेत् क्रिय-
माणं रसायनम् ॥ १५० ॥

त्रिकलेका चूर्ण १५ पल, वायविडंग ७ पल, लोहेका
चूर्ण २ पल, भिलावे १००, वापची १० पल, शिला-
जीत २ तोले, गूगल ८ तोले, पोहकरमूल ४ तोले,
सैधानमक ६ तोले, चीता, कालीमिर्च, पीपल, सोठ,
दालचीनी, तेजपात, केशर और नागरमोथा ये प्रत्येक
औषधि एक एक तोला लेवे इन सबको एकत्र कूट
पीसकर चूर्ण बनावे और सब चूर्णके बराबर खोंड
लेकर पहले खोंडकी चासनी बनाले फिर औषधि-
योंका चूर्ण डालकर चार चार तोलेके लड्डू बनावे ।
प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर नित्य एक मोदक खाय
और यथेच्छानुसार भोजन करे । यह मोदक-अठारह
प्रकारके कोड, प्लीहा, गुल्म, भगन्दर, अस्सी प्रकारके
वातरोग, चालीस प्रकारके पित्तके रोग, बीस प्रकारके
कफके रोग, द्वादशरोग, सान्निपातिकरोग, शालाक्य-
रोग, शिरोरोग, नेत्ररोग, भ्रूरोग, कण्ठरोग, तालु-
रोग, जिह्वारोग और उपजिह्वका, इन सब रोगोंको
नष्ट करतेहैं । इसको ऊर्ध्वजत्रुरोगोंमें भोजनके पश्चात्
सेवन करना चाहिये । शरीरगत रोगोंमें भोजनसे
पहिले और उदरके रोगोंमें भोजनके मध्यमें सेवन
करना चाहिये । इसको यथोक्तविधिसे सेवन करनेसे

उपर्युक्त सम्पूर्ण रोग नष्ट होते हैं और रसायनके गुण
उत्पन्न होते हैं ॥ १४२-१५० ॥

महाभल्लातक ।

निम्बगोपारुणाकटी त्रायन्ती त्रि-
फला घनम् । पटोलावल्गुजानन्ता-
वचाखदिरचन्दनम् ॥ १५१ ॥ पाठा-
शुण्ठीशटीभाङ्गीवासाभूनिम्बवत्स-
कम् । श्यामेन्द्रवारुणीमूर्वाविडङ्गा-
तिविषानलम् ॥ १५२ ॥ हस्तिक-
र्णामृताद्रेका पटोलं रजनीद्वयम् ।
कृष्णारग्वधसप्ताहं शिरीषं चोच्चटा-
फलम् ॥ १५३ ॥ मञ्जिष्ठालाङ्गुलीरा-
स्ता नक्तमालं पुनर्नवा । दन्तीबीजक-
सारश्च भृङ्गराजं कुटन्नटम् ॥ १५४ ॥
अक्षोटकश्च शाखोटं द्विपलांशं पृथक्
पृथक् । गृह्णीयात्तानि सर्वाणि
जलद्रोणे पचेच्छनैः ॥ १५५ ॥ अष्ट-
भागावशेषन्तु कषायमवतारयेत् ।
विधाय वाससा पूतं स्थापयेद्भाजने
दृढे ॥ १५६ ॥ भल्लातकसहस्राणि
छित्त्वा त्रीण्यर्मणेऽम्भसि । पचेदष्टा-
वशेषन्तु कषायमवतारयेत् ॥ १५७ ॥
तच्च वस्त्रेण संशोध्य द्वौ कषायौ वि-
मिश्रयेत् । गुडस्य तु तुलां दत्त्वा ले-
हवत्तपचेच्छनैः ॥ १५८ ॥ भल्लात-
कसहस्रस्य मज्जानं तत्र निक्षिपेत् ।
त्रिकटुत्रिकलासुस्तं विडङ्गं चित्रकं
तथा ॥ १५९ ॥ सैन्धवं चन्दनं कुष्ठं
दीप्यकश्च पृथक् पलम् । सौगन्ध्यार्थं
क्षिपेत्तत्र चातुर्जातं पलं पलम् ॥ १६० ॥
महाभल्लातको ह्येष महादेवेन नि-
र्मितः । प्राणिनान्तु हितार्थाय ना-
शयेच्छीघ्रमेव तु ॥ १६१ ॥ श्वित्रमौ-
दुम्बरं ददुमृक्षजिह्वश्च काकणम् ।
पुण्डरीकं स चर्माख्यं विस्फोटं रक्त-
मण्डलम् ॥ १६२ ॥ कण्डू कापाल-

कुष्ठश्च पामानश्च विपादिकाश्च । वा-
तरक्तमुदावर्त्तं पांडुरोगं व्रणान् कृ-
मीन् ॥ १६३ ॥ अर्शासि षट्प्रकारा-
णि कासश्वासौ भगन्दरम् । समा-
भ्यासेन पलितमामवातं खुदुर्जयम्
॥ १६४ ॥ निर्यन्त्रणस्तु कथितः स-
र्वर्तुषु च शस्यते । कुरुते परमां का-
न्तिं प्रदीप्तं जठरानलम् ॥ १६५ ॥
अनुपानं प्रयोक्तव्यं छिन्नातोयं पयो-
ऽथवा । भोजनश्च तथा त्याज्यमुष्णं
चाम्लं विशेषतः ॥ १६६ ॥

नीम, सारिवा, अतीस, कुटकी, त्रायमाण, त्रि-
फला, नागरमोथा, पथोलपत्र, वापची, अनन्तमूल,
वच खैर, चन्दन, पाठ, सोठ, कचूर, भारंगी, अडूसा,
चिरायता, कुडा, कालीनिसोत, इन्द्रायण, मूर्वा,
वायविडंग, अतीस, चीता, हस्तिकर्णपलाश, गिलोय,
बकायन, कडवे परवल, हलदी, दारुहलदी, पीपल,
अमलतास, सतोना, सिरस, उटङ्गनके बीज,
मजीठ, कलिहारी, रायसन, करंज, पुनर्नवा,
जमालगोटा, विजयसार, भाँगरा, श्योनाक,
अखरोट और सिंहोरा ये प्रत्येक औषधी आठ २
तोले लेकर एक द्रोण जलमे पकावे, जब पकते २
आठवाँ भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर बख्खसे
छान लेवे । फिर इस काथको एक उत्तम दूध पात्रमे
करके रख देवे । पश्चात् उत्तम भिलावे १०००
लेकर उनको छेदकर तीन अर्म्मण जलमे पकावे,
जब पकते २ आठवा भाग जल बाकी रहजाय तब
उतारकर छान लेवे, फिर इस काथ और पहिले
काथ दोनोको मिलाकर इनमे एक तुला प्रमाण गुड
डालकर धीरे धीरे पकावे और पूर्वोक्त उसीजे हुए
१००० भिलावोकी मीग निकालकर मिलादेवे । तथा
त्रिकुटा, त्रिफला, नागरमोथा, वायविडंग, चीता,
सैधानमक, चन्दन, कूठ और धजवायन प्रत्येक
औषधिका चूर्ण चार २ तोले तथा सुगांधिके लिये
चातुर्जातककी प्रत्येक औषधिका चूर्ण चार चार
तोले डालकर त्रिविपूर्वक पाकको तैयार करे ।
यह महाभलातक अवलेह महादेवने प्राणियोके
हितके लिये पूर्वकालमे निर्माण किया है । यह
औषधि श्वित्रकुष्ठ, उदुम्बरकुष्ठ, दद्रु, ऋक्षाजिह,

काकण, पुंडरीक, चर्म्मरख्य, विस्फोटक, रक्तमण्डल,
कण्डू, कापालकुष्ठ, पामा, विपादिका, वातरक्त, उदाव-
र्त्त, पाण्डुरोग, व्रण, कृमि, छः प्रकारकी बवासीर,
खासी, श्वास, भगन्दर, पलितरोग और दुर्जय आमवा-
तरोगको नष्ट करता है । इसको सेवन करनेसे किसी
प्रकारकी पीडा नहीं होती और यह सम्पूर्ण ऋतुओमें
सेवन करना उचित है । इसका अभ्यास करनेसे शरीर-
की कांति अत्यन्त बढ़ती है और जठराग्नि अतिशय
दीपन होती है । इसका अनुपान गिलोयका काथ या
स्वरस अथवा दूध या जल है । इसपर विशेष करके
गरम और अम्ल भोजन त्यागदेना चाहिये १५१-१६६

पञ्चनिम्बादिचूर्ण ।

पिचुमन्दफलं पुष्पं त्वक् पत्रं मूलमेव
च । पञ्चैतानि सुसूक्ष्माणि समचूर्णानि
कारयेत् ॥ १६७ ॥ अष्टभागावशेषेण
खदिरासनवारिणा । भावायित्वा तु
संयोज्य द्रव्याण्येतानि दापयेत् १६८ ॥
चित्रकोऽथ विडङ्गानि व्याधिघात-
कशर्कराः । भल्लातकहरीतक्यौ शु-
ण्ठ्यामलकगोधुराः ॥ १६९ ॥ चक्र-
मर्दकवाकूची पिप्पली मरिचं निशा।
लोहचूर्णसमायुक्तं समभागं प्रमाणतः
॥ १७० ॥ भावयेद्द्रुङ्गराजेन पुनः
शुष्काणि कारयेत् । निम्बार्धं सर्व-
मेतेषामेकीकृत्य निधापयेत् ॥ १७१ ॥
विडालपदमान्तु सर्पिषा पयसाऽपि
वा । प्रातः प्रातर्निषेवेत खदिरा-
सनवारिणा ॥ १७२ ॥ परिहारो न
चात्रास्ति पञ्चनिम्बेऽवतिष्ठति । मा-
समात्रप्रयोगेण कुष्ठं हन्ति रसायनम्
॥ १७३ ॥ त्वग्दोषं नीलिकाव्यङ्गं
तथैव तिलकालकान् ॥ अष्टादशवि-
धं कुष्ठं सप्त चैव महाक्षयान् ॥ सर्व-
व्याधिविनिर्मुक्तो जीवेद्वर्षशतं सु-
खी ॥ १७४ ॥

नीमके फल, फूल, छाल, पत्र और जड ये पांचों
समान भाग लेकर बारीक पीसकर चूर्ण कर लेवे । फिर

इस चूर्णको अष्टावशेष खैर और विजयसारके काथमे भावना देकर इसमे निम्न लिखित औषधियाँ मिलावे जैसे चीता, वायविडंग, अमलतास, खांड, भिलावे, हरड, सोठ, आमले, गोखुरु, चकवड, वापची, पीपल, कालीमिरच, हलदी और लोहेका चूर्ण ये सब समान भाग और इन सब औषधियोंका चूर्ण नीमके चूर्णसे आधा भाग लेवे, सबको एकत्र मिलाकर भांगरेके रसकी भावना देकर सुखा लेवे । प्रतिदिन इसमेंसे एक तोला प्रमाण घृतके साथ अथवा दूधके साथ प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करे और ऊपरसे खैर या विजयसारका काथ पान करे । इसपर कुछ परहेज नहीं है । इस औषधियोंको एक महीनेपर्यन्त सेवन करनेसे कुष्ठरोग नष्ट होता है और रसायनके गुण उत्पन्न होते हैं । इसको सेवन करनेवाला मनुष्य सर्व प्रकारके त्वचाके दोष, नीलिका, व्यंग, तिलकालक, अठारह प्रकारके कुष्ठ, सात प्रकारके महाक्षय और सर्व प्रकारके रोगोंसे मुक्त होकर सुखपूर्वक सौ वर्षतक जीता रहता है ॥१६७-१७४॥

त्रिफलाद्यचूर्ण ।

त्रिफलातिविषाकटुका निम्बकालिङ्गवचापटोलमागधिकाः । रजनीद्वयपद्ममूर्वा विशालाभूनिम्बानि पलांशानि । दद्यात्त्रिवृतं त्रिगुणं चूर्णमिदं कुष्ठसुप्तिहरम् ॥ १७५ ॥

त्रिफला, अतीस, कुटकी, नीम, कुडा, वच, पटोलपत्र, पीपल, हलही, दारुहलदी, कमल, मूर्वा, इन्द्रायण और चिरायता ये प्रत्येक औषधि एक २ पल और निसोत ३ पल लेवे, सबको एकत्र पीसकर चूर्ण बनावे । यह चूर्ण—कोठ और सुप्रताको नष्ट करता है ॥ १७५ ॥

पथ्याद्यवटक ।

पथ्यां सेन्द्रयवां सकिंशुकफलां सार्का तथाऽऽवर्त्तिनीं व्याधिघ्नेन च योजितां हतभुजा सारुष्करां बाकुचीम् । तद्द्रव्यै कृमिशत्रुणा व्युपगतामेकैकवृद्धामिमां गोमूत्रेण विमृद्य तां च सकलां कृत्वा वर्ती भक्षयेत् ॥१७६॥ निहन्ति हतनासिकाकरजकर्णपा-

दांगुलीः क्षरद्रुधिरपूतिपूयपरिजन्तुजग्धव्रणान् । अभिन्नचिरलक्षितस्वरकमाशु कुष्ठं महन्निहन्ति कुरुते वपुस्तरुणभास्करार्चिःसमम् ॥ १७७ ॥

हरड, इन्द्रजौ, ढाकके पुष्प, त्रिफला, आक, मेडा-शिगी, अमलतास, चीता, भिलावे, वापची और वायविडंग ये प्रत्येक औषधि क्रमसे एकसे एक बढाकर लेवे, सबको एकत्र कूट पीसकर गोमूत्रमे खरल करके एक एक तोलेकी गोली बना लेवे । प्रतिदिन एक गोली खाय । इसको विविपूर्वक सेवन करनेसे जिन मनुष्योंकी नासिका, हाथ, कान और पाचोकी अंगुली गल गई है तथा जिनके अगोंसेसे खरि, दुर्गंध राध और अनेक प्रकारका स्राव गिरता है, जिनके व्रण कृमियोंके खानेसे दुष्ट हैं, जिनके अंग फट गये हैं और जिनके बहुत दिनोका कुष्ठ दुःख देता है उनके सर्व प्रकारके विकार नष्ट होकर शरीर तरुण सूर्यके प्रकाशके समान हो जाता है ॥ १७६ ॥ १७७ ॥

तिक्तषट्कघृत ।

निम्बं पटोलं दावीं डुरालभां तिक्तकरोहिणीं त्रिफलाम् । कुर्यादद्धपलांशान् पर्पटकं त्रायमाणान् च ॥१७८॥ सलिलाढकसिद्धानां रसेऽष्टभागस्थिते क्षिपेत् पूते । चन्दनकिराततिक्तकमागधिकास्त्रायमाणा वा १७९ ॥ सुस्तं वत्सकबीजं कल्ककृत्याद्धकार्षिकान् भागान् । नवसर्पिषश्च षट्पलमेतत्सिद्धं घृतं पेयम् ॥ १८० ॥ कुष्ठं ज्वरमेहाशोम्रहणीपांद्वाभयश्वयथून् हन्ति । पामाविसर्पि पिटिकाकंडूगण्डव्रणान् सद्यः ॥ १८१ ॥

नीम, पटोलपत्र, दारुहलदी, धमासा, कुटकी, त्रिफला, पित्तपापडा और त्रायमाण ये प्रत्येक औषधि दो दो तोले लेकर एक आढक जलमे पकावे, जब पकने पकते जल आठवाँ भाग शेष रह जाय तब उत्तार कर छान लेवे । फिर इस काथमे चन्दन, चिरायता, पीपल, त्रायमाण, नागरमोथा और इन्द्रजौ

इन औषधिका कल्क छः छः मासे और उत्तम नवीन गायका घी २४ तोले लेवे, सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिसे घृतको पकावे । यह घृत—कुष्ठ ष्वर, प्रमेह, ववासीर, संग्रहणी, पाण्डुरोग, सूजन, पामा, विसर्प पिटिका, कण्डू और तत्काल गलगण्ड-के व्रणोको नष्ट करता है ॥ १७८-१८१ ॥

पञ्चतित्तकघृत ।

निम्बं पटोलं व्याघ्री च गुडूचीवास-
कं तथा । कुर्याद्दशपलान् भागा-
नेकैकस्य तु कुट्टितान् ॥ १८२ ॥ ज-
लद्रोणे विपक्तव्यं यावत्पादावशेषि-
तम् । घृतप्रस्थं पचेत्तेन त्रिफलागर्भसं-
युतम् ॥ १८३ ॥ पञ्चतित्तामिति ख्या-
तं सर्वकुष्ठविनाशनम् । अशीतिं वा-
तजान् रोगांश्चत्वारिंशच्च पैत्तिकान् ॥
॥ १८४ ॥ विशतिं श्लैष्मिकांश्चा-
पि पानादेवापकर्षति । दुष्टव्रणकृमी-
नर्शः पञ्चकासांश्च नाशयेत् ॥ १८५ ॥

नीम, पटोलपत्र, कटेरी, गिलोय और अडूसा ये प्रत्येक औषधि दश दश पल लेकर कूट लेवे । फिर इन सबको एकत्र एक द्रोण जलमे पकावे । जब पकते पकते जल चौथाई भाग बाकी रह जाय तब उतारकर छान लेवे । फिर इस काथमे एक प्रस्थ उत्तम गायका घी और कल्कके लिये त्रिफलेका चूर्ण मिलाकर विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे । यह पंच-तित्तकघृत—सर्व प्रकारके कुष्ठोंको नष्ट करता है तथा अस्सी प्रकारके वातरोग, चालीस प्रकारके पित्तके रोग और बीस प्रकारके कफके रोगोको पीते ही नष्ट कर देता है । यह घृत—दुष्टव्रण, कृमि, ववासीर और पाचो प्रकारकी खोंसीको दूर करता है ॥ १८२ ॥ ॥ १८३ ॥ १८४ ॥ १८५ ॥

द्वितीयपञ्चतित्तकघृत ।

निम्बामृतावृषपटोलनिदाग्धिकानां प-
क्तं घृतं काथितकल्कयुतं यथावत् ।
ख्यातं यथोक्तममृतं भुंवि पञ्चतित्तं
हन्याद्विसर्पविषमज्वरपाण्डुलुष्टान् १८६

नीम, गिलोय, अडूसा, पटोलपत्र और कटेरी इन पाचों औषधियोंके काथ और कल्कके द्वारा यथावि-

धिसे घृतको पकावे । यह पंचतित्तकघृत—संसारमें अमृ-
तके समान है तथा विसर्प, विषमज्वर, पाण्डु और
कुष्ठको नष्ट करता है ॥ १८६ ॥

गुग्गुलुपञ्चतित्तकघृत ।

पटोलवत्सकातित्तनक्तमालसहामृताः
। निष्काथ्य सलिलद्रोणे पलैर्वि-
शतिभागिकैः ॥ १८७ ॥ पादशेषे
रसे तस्मिन् घृतप्रस्थं विपाचयेत् ।
कल्कैरक्षसमैर्दारु-त्रिफला-त्र्यूषणा-
ग्निभिः ॥ १८८ ॥ पृथ्वीप्रतिविषा-
पाठाचव्येन्द्रयवदीप्यकैः । मूर्वाक्षा-
रद्वयाजाजीवचाकृमिहरैर्युतैः ॥ १८९ ॥
कटुकासप्तपर्णाभ्यां पुरस्याष्टपलेन च ।
कुष्ठानि रक्तापित्तश्च वीसर्पपृत्तिकु-
ष्ठताम् ॥ १९० ॥ पानात्प्रशमयेदेत-
द्गुग्गुलुः पञ्चतित्तकः । सिद्धमेतेन
विधिना सर्पिः प्रस्थं सगुग्गुलुम् । पा-
नाभ्यञ्जननस्येषु तच्चोक्तानाप्लुयाद्गु-
णान् ॥ १९१ ॥

पटोलपत्र कडवे, इन्द्रजौ, करंज, पियावांसा और गिलोय ये २० पल लेकर एक द्रोण जलमे पकावे, जब पकते पकते जल चौथाई भाग बाकी रह जाय तब उतारकर छान लेवे । फिर इस काथमे घृत १ प्रस्थ, तथा कल्कके लिये देवदारु, त्रिफला, त्रिकुटा, चीता, बड़ी इलायची, अतीस, पाद, चव्य, इन्द्रजौ, अजवायन, मूर्वा, जवाखार, सजी, जीरा, वच, वायविडंग, कुटकी और सतोनाकी छाल इन प्रत्ये-
कका कल्क एक एक तोला और गुग्गुलु ३२ तोले लेवे । सबको एकत्र मिलाकर उत्तमविधिसे घृतको पकावे । यह घृत—कुष्ठ, रक्तपित्त, विसर्प और जिनमे दुर्गंध आती हो ऐसे कुष्ठ इन सबको पान करते ही नष्ट करता है । यह पान अभ्यंग और नस्य कर्ममे प्रयोग करनेसे यथोक्त गुणोको करता है ॥ १८७-१९१ ॥

द्वितीयगुग्गुलुपञ्चतित्तकघृत ।

निम्बामृतापटोलानां कण्टकाय्या
वृषस्य च । पृथग्दशपलान् भागान्

जलद्रोणे विपाचयेत् ॥ १९२ ॥ व्यूषणं
स्वर्जिकाक्षारं शतपुष्पा च कार्ष्णिका ।
गर्भं समावाप्य पचेद्गुगुलोः पञ्चविं-
शतिः ॥ १९३ ॥ पलञ्च खादयेदेत-
द्गुगुलुः पञ्चतित्तकम् । विधिना ह-
न्ति न चिरात्स्वदोषानतिविस्तरा-
न् ॥ १९४ ॥ विवर्णस्वापसंकोचं क्ले-
दवतीः शिरांस्तथा । गण्डमालार्बु-
दव्यङ्गनाडीकुष्ठभगन्दरान् ॥ १९५ ॥
विषमज्वरहृद्रोगगरदोषविषकृमीन् ।
प्रमेहासृग्दरोन्माद-शोथ-गुल्मोदरा-
णि च । कामलापांडुरोगाश्च क्षिप्रमे-
व व्यपोहति ॥ १९६ ॥

नीम, गिलोय, पटोलपत्र, कटेरी और अड्डसा
ये प्रत्येक औषधि दण दण पल लेकर एक त्रौण
जलमें पकावे । जब पकते पकते जल चौथाई भाग
बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेवे । फिर इस
काथमें पहले गुग्गुलुको पकाकर छानले फिर आंच-
पर गाढ़ा करे जब मावासा बन जाय अनन्तर त्रि-
कुटा, सजी और सौफ यह प्रत्येक एक एक तोला
मिलावे और उत्तम मैसिया गूगल २५ पल
ढाल कर पकावे जब पक कर स्वयं शीतल
हो जाय तब इसको उत्तम चिकने वासनमें भर
कर रख देवे । प्रतिदिन इस पंचतित्तकनामक
गूगलको चार तोले प्रमाण सेवन करे । यह गूगल
बहुत शीघ्र अत्यंत विस्तृत हुए त्वचाके विकार,
विवर्णता, अंगोंका संकोच, क्लेदवती शिरा (अर्थात्
जिन नसोंमेंसे क्लेद बहता है), गण्डमाला, अर्बुद,
ज्वंग, नाडीत्रण, कुष्ठ, भगन्दर, विषमज्वर, हृदय-
रोग, विषवाधा, गरदोष, कृमि, प्रमेह, रक्तप्रदर,
उन्माद, सूजन, गुल्म, उदररोग, कामला और
पाण्डुरोगको शीघ्र ही दूर करता है ॥ १९२-१९६ ॥

महातित्तकघृत ।

सप्तच्छदं प्रतिविषां शम्याकं तित्करो-
हिणीं पाठाम् । मुस्तमुशीरं त्रिफलां
पटोलपिचुमन्दपपटकान् ॥ १९७ ॥
धन्वयवासं चन्दनमुपकुल्यां पद्मकं
रजन्यौ च । षडग्रन्थां सविशालां

शतावरीं शारिवे चोभे ॥ १९८ ॥
वत्सकवीजं वासां मूर्वाममृतां किरा-
ततित्तञ्च । कल्कान् कुयूर्यान्मातिमा-
न्यष्ट्याह्वं त्रायमाणञ्च ॥ १९९ ॥
कल्कस्य चतुर्भागं जलमष्टगुणं रसो-
ऽमृतफलानाम् । द्विगुणं घृतं प्रदेयं
तत्सर्पिः पाययेत्सिद्धम् ॥ २०० ॥
कुष्ठानि रक्तपित्तं प्रवालान्यशांसि
रक्तवाहीनि । वीसर्पमम्लपित्तं वाता-
सृक् पांडुरोगञ्च ॥ २०१ ॥ विस्फो-
टकान् सपामालुन्मादान् कामलां
ज्वरान् पांडून् । हृद्रोगगुल्मपिटका-
मसृग्दरं गण्डमालां च ॥ २०२ ॥ हन्या-
देतत्सद्यः पीतं काले यथाबलं स-
र्पिः । योगशतैरप्यजितान्महाविका-
राञ्च जयेन्महातित्तम् ॥ २०३ ॥

सतेना, अतीस, अमलतास, कुटकी, पाठ,
नागरमोथा, खस, त्रिफला, पटोलपत्र, नीमकी छाल,
पित्तपापडा, धमासा, चन्दन, पीपल, पद्माख, हलदी,
दारुहलदी, वच, इन्द्रायण, शतावर, शारिवा, अनंत-
मूल, इन्द्रजौ, अड्डसा, चुरनहार, गिलोय, चिरा-
यता, मुलैठी और त्रायमाण ये प्रत्येक औषधि दो २
तोले लेकर इन सबका कल्क बनावे । कल्कसे चौ-
गुना जल और अठगुना पटोलपत्रोका काथ लेवे और
दुगुना उत्तम घृत लेवे । सबको यथाविधिसे मिला
कर विधिपूर्वक घृतको सिद्ध करे । यह सर्व प्रकार-
के कुष्ठ, रक्तपित्त, जिसमेंसे रुधिर बहता हो और
जो अत्यन्त प्रबल हो ऐसी ववासीर, विसर्प, अम्ल-
पित्त वातरक्त, पाण्डुरोग, विस्फोटक, पामा, उन्माद,
कामला, ज्वर, हृदयरोग, गुल्म, पिडिका, रक्तप्रदर
और गण्डमाला इन सब रोगोंको बलानुसार पान
किया हुआ घी तत्काल नष्ट कर देता है । जो भयंकर
रोग सैकड़ों औषधियोंसे भी आरोग्य नहीं होते उन-
को यह महातित्तक घृत अवश्य दूर कर देता है
॥ १९७-२०३ ॥

वज्रकघृत ।

वासा-गुडूची-त्रिफलापटोलकरञ्जनि-
म्बासनकुष्ठवेत्रम् । तत्काथकल्केन

घृतं विषकं तद्वज्रकं कुष्ठहरं प्रदिष्टम्
॥ २०४ ॥ विशीर्णकर्णाङ्गुलिहस्तपा-
दः कम्पादितो भिन्नगलोऽपि मर्त्यः ।
पौराणिकीं कान्तिमवाप्य जीवेद-
व्याधिको वर्षशतं च कुष्ठी ॥ २०५ ॥

अडूसा, गिलोय, त्रिफला, पटोलपत्र, करंज, नीम-
की छाल, विजयसार, कूठ और वेत इनके काथ
और कल्कके द्वारा घृतको पकावे तो वज्रकघृत सिद्ध
होता है । इस वज्रकघृतसे गले हुए कर्ण, हाथ, पांवां-
की अंगुली, कम्प, अर्दित और भिन्नगल ऐसे जो
मनुष्य है वे तथा कुष्ठरोगी उत्तम कांतिको धारण
कर सौ वर्षतक जीते है ॥ २०४ ॥ २०५ ॥

महावज्रकघृत ।

वासा-गुडूची-त्रिफलापटोलनिदाग्धि-
कार्निबकरञ्जतोये । वासादिकल्कैः
तु सिद्धमेतद्घृतं महावज्रकमादिश-
न्ति ॥ २०६ ॥ तन्मासमात्रञ्च निषे-
व्यमाणो हिताशनो नातिचिरेण कु-
ष्ठी । विशीर्णकर्णाङ्गुलिनासिकोऽपि
भवेत्स संपूर्णतनुः शरीरी ॥ २०७ ॥
उदीर्णवेगानपि च प्रमेहांश्चिरप्रवृत्ता-
न्विषमज्वरांश्च । तदेव सर्पिः सुजनैः
प्रयुक्तं विजित्य कुष्ठं बलमादधा-
ति ॥ २०८ ॥

अडूसा, गिलोय, त्रिफला, पटोलपत्र, कटेरी, नीम
और करंज इनके काथमे इनही औषधियोंके कल्कके
द्वारा घृतको सिद्ध करे । इसको महावज्रकघृत
कहते है । इसको एक महीनेपर्यंत सेवन करनेसे हित-
कारक भोजन करनेवाला मनुष्य शीघ्र ही कुष्ठरोग-
से मुक्त होता है । जिनके कान, अंगुली और ना-
सिका गलगाई है वे इस घृतके प्रभावसे सम्पूर्ण अंग-
युक्त होकर अपूर्व जोभाको धारण करते है । तथा अ-
त्यन्त वेगको प्राप्त हुआ प्रमेहरोग और बहुत दिनोंके
उत्पन्न हुए विषमज्वरको भी नष्ट करता है । यह घृत
श्रेष्ठ मनुष्यों करके प्रयोग किया हुआ कुष्ठको नष्ट
करता और बलको देता है ॥ २०६-२०८ ॥

खदिराद्यघृत ।

खदिरारग्वधव्योषत्रिवृद्धन्ती सचित्र-
कम् । पटोलत्रिफलारिष्टहरिद्रावा-
कुचीफलम् ॥ २०९ ॥ कटुकातिवि-
षापाठा त्रायन्ती धन्वयासकम् । कु-
ष्ठं करञ्जबीजानि शारिवे द्वे सवत्स-
के ॥ २१० ॥ भल्लातकविडङ्गानि गु-
ग्गुलोः कल्कसंयुतम् । पञ्चतित्तक-
षायेण सर्पिः सिद्धं पिवेन्नरः ॥ २११ ॥
विषवीसर्पविस्फोटकंडूकुष्ठव्रणानि च ।
दद्रूकिटिभकुष्ठानि गलगण्डविच-
र्चिकाः । पानतः शमयत्याशु वृक्ष-
मिन्द्राशनिर्यथा ॥ २१२ ॥

खैर, अमलतास, त्रिकुटा, निसोत, दंती, चीता,
पटोलपत्र, त्रिफला, नीम, हलदी, वापची, कुटकी,
अतीरा, पाठ, त्रायमाण, धमासा, कूठ, करंजके बीज,
शारिवा, अनंतमूल, इन्द्रजौ, भिलावां, वायविडंग
और गूगल इनके कल्कके द्वारा पंचतित्तके काथमे
घृतको सिद्ध करे । यह घृत-विषविकार, विसर्प,
विस्फोट, कण्डू, कुष्ठ, व्रण, दद्रू, किटिभ, कुष्ठ, गल-
गण्ड और विचर्चिका इन सबको केवल पान मात्रसे
नष्ट करता है, जिसप्रकार इन्द्रका वज्र वृक्षको नष्ट
कर देता है ॥ २०९ ॥ २१० ॥ २११ ॥ २१२ ॥

महाखदिरघृत ।

खदिरस्य तुलाः पञ्च शिंशपासन-
योस्तुले । तुलाद्धं सर्व एवैते करञ्ज-
रिष्टवेतसाः ॥ २१३ ॥ पर्पटं कुटंजं
चैव वृषः कृमिहरस्तथा । हरिद्रे कृ-
तसालश्च गुडूचीत्रिफलान्निवृत् २१४ ॥
सप्तपर्णे च संकुट्य चतुर्द्रोणेन वारि-
णा । पक्त्वा कषायं संगृह्य चतुर्भा-
गावशेषितम् ॥ २१५ ॥ तेन काथेन
कुशलो घृतस्यार्द्धाढकं पचेत् । क-
ल्कैः कृतैर्महातिकैर्द्रव्यैर्द्धपलोन्मि-

तैः ॥ २१६ ॥ महाखदिरमेतद्वि कु-
ष्ठिनामुत्तमं घृतम् । अष्टादशविधं
कुष्ठं पानादेव व्यपोहति ॥ २१७ ॥

खर ५ तुला परिमाण, सीसम और विजयसार १
तुला परिमाण, तथा करंज, नीम, वेत, पित्तपापडा,
कुडेकी छाल, अड्डसा, वायविडंग, हलदी, दारुहलदी,
अमलतास, गिलोय, त्रिफला, निसोत और सतोना ये
सब मिश्रित आधे तुला परिमाण लेवे, सबको कूटकर
चार ट्राण जलमें पकावे जब पकते २ जल चौथाई भाग
वाक्री रहजाय तब उतारकर छान लेवे फिर इन का-
थमें आधे आठक परिमाण घृत और महातिक घृतकी
औषधियोंका कल्क दो २ तोले डालकर उत्तम विधिसे
घृतको पकावे । यह महाखदिर घृत कुष्ठ रोगियोंके
लिये उत्तम औषधि है । इसको केवल पान करनेसे
ही अठारह प्रकारके कुष्ठ नष्ट होते हैं ॥ २१६ ॥
॥ २१७ ॥

मेषशृङ्गाद्यतैल ।

मेषशृङ्गाश्वदंष्ट्राशार्ङ्गाशुङ्गीसिद्धं
कृतम् । तैलमिदं कुष्ठीनां पानाभ्य-
ङ्गयोर्विदधीत ॥ २१८ ॥

मेढाशिगी, गोखरु, काकजघा और गिलोय इनके
काथ और कल्कके द्वारा तैलको सिद्ध करे । यह
तैल कुष्ठरोगियोंका पान और अभ्यंग कर्ममें प्रयोग
करना चाहिये ॥ २१८ ॥

वज्रकतैल ।

सप्तपर्णकरञ्जार्कमालतीकरवीरजम् ।
मूलं स्नुहीशिरीषाभ्यां चित्रकास्फो-
टयोरपि ॥ २१९ ॥ करञ्जबीजं त्रि-
फला त्रिकटु रजनीद्वयम् । सिद्धार्थकं
विडङ्गानि प्रपुत्राटश्च संहरेत् ॥ २२० ॥
मूत्रपिष्टैः पचेतैलमेभिः कुष्ठविना-
शनम् । अभ्यंगाद्वज्रकं नाम नाडी-
दुष्टव्रणापहम् ॥ २२१ ॥

सतवन, करंज, आक, मालती, कनेर, थूहरकी
जड, सिरसकी जड, चीता, कोइली, करंजके बीज,
त्रिफला, त्रिकुटा, हलदी, दारुहलदी, सफेद सरसो,
वायविडंग और पमारके बीज इन सब औषधियों-
को गोमूत्रमे पसिकर इनके द्वारा तैलको पकावे ।
यह वज्रक तैल-अभ्यंग मात्रके सर्व प्रकारके कुष्ठ,
नाडोव्रण और दुष्टव्रणको नष्ट करता है ॥ २१९ ॥
॥ २२० ॥ २२१ ॥

महावज्रकतैल ।

एरण्डताक्षर्यधननीपकदंबभार्गीक-
म्पिल्लवेल्लफलिनिसुरवारुणीभिः ।
निर्गुण्डिपुष्करसुराह्वयस्वर्णदुग्धी श्री-
वेष्टगुग्गुलुशिलाहरितालमिश्रैः २२२ ॥
तुल्यैस्त्वगर्कदुग्धैः सिद्धं तैलं महा-
वज्रम् । अतिशयितवज्रकगुणं श्वि-
त्राशीं प्रन्थिमालाघ्नम् ॥ २२३ ॥

अण्डकी जड, जाल, नागरमोथा, कदम्ब, धारा
कदरन, भारंगी, कबीला, वायविडंग, फूलप्रियंगु,
इन्द्रायण, निर्गुण्डी, पोहकरमूल, देवदारु, स्वर्णदुग्धी,
(पीले दूधकी कटेरी या सत्यानासी कटेरी), गन्ध-
विरोजा, गूगल, मैनासिल और हरिताल, इनके कल्क-
के द्वारा आककी छालके स्वरस और आकके दूधमे
तैलको पकावे यह महावज्रकतैल वज्रके समान
अत्यन्त गुणवाला है तथा श्वित्रकुष्ठ, ववासीर और
प्रन्थिमाला इनको नष्ट करता है ॥ २२२ ॥ २२३ ॥

तृणतैल ।

चतुर्गुणे तृणरसे कटुतैलं विपाचये-
त् । मञ्जिष्ठारुङ्गनिशाचक्रमदार-
ग्वधपल्लवैः ॥ २२४ ॥ एतत्सिद्धाग्नि-
ना साध्यं वर्णदं कान्तिदायकम् ।
अष्टादशसु कुष्ठेषु शस्यते गात्रप्रक्ष-
णात् ॥ दद्रुं विचर्चिकां पामां हन्ति
सिध्मं विशेषतः ॥ २२५ ॥

रोहिस सुगन्धित तृणोके चौगुने रसमे कडेवे तैल
को पकावे और उसमे मजीठ, कूठ, हलदी, चकवड
और अमलतासके पत्ते इनका कल्क डाल देवे । जब यह
तैल सिद्ध होजाय तब उतार कर उत्तम पात्रमे करके

खदेवे। यह तेल-वर्णको उज्ज्वल करनेवाला, कातिको उत्पन्न करनेवाला और केवल शरीर पर मलनेसे अठारह प्रकारके कुष्ठोको नष्ट करता है तथा दाद विचर्चिका पामा और विशेष करके सिन्धको नष्ट करता है ॥ २२४ ॥ २२५ ॥

बृहत्तृणतैल ।

दावीविडंगं ह्यमारमूलं श्यामा च मूलं कृतमालकस्य । कुसुम्भहेमोत्पलकासमर्दाशिरीषयष्टीद्रग्रगन्धसिद्धाः ॥ २२६ ॥ निंबं वचाचन्दनपद्मकं च कुष्ठं निशासैन्धवचक्रमर्दाः । मञ्जिष्ठमांसी सुरदारुलाक्षासिद्धार्थकं वाकुचिबीजमूर्खं ॥ २२७ ॥ गायत्रिसारं सुरसापटोलं यवानिकाबीजकरञ्जबीजम् । द्रव्यैः समस्तैर्विधिना विपक्वं कर्षभमाणैः परिकीर्तितैश्च ॥ २२८ ॥ प्रस्थं च तैलं सितसर्षपानां दत्त्वा रसं षड्गुणकं तृणस्य । शनैः पचेत्ताम्रमये कटाहे उद्धृत्य तैलं परिपाच्यमानम् ॥ २२९ ॥ पीत्वाथ वा नस्यविधौ प्रयोज्यं सिद्धं महादद्भुकिलासकुष्ठम् । विचर्चिकाव्यंगविसर्पपामा निहन्ति नूनं कुथितं समस्तम् । विभर्त्ति रूपं कमनीयमन्यैर्वर्णं तथा कान्तिकरं मनुष्यम् ॥ २३० ॥

दारुहलदी, वायविडंग, कनेरकी जड़, अनन्तमूल, अमलतासकी जड़, कतुम, नागकेशर, कमल, कसौदी, सिरस, मुलैठी, अगर, तगर, नीम, वच, चन्दन, पचास, कूठ, हल्दी, सैधानमक, चकवट, मजीठ, बाल-छड़, देवदारु, लाख, सफेद सरसों, वावर्चाके बीज, मूर्वा खैरसार, तुलसी, पटोलपत्र, अजवायन और करंजके बीज इन प्रत्येक औषधिका कलक एक २ तोला, सफेद सरसोका तेल १ प्रस्थ और राहिस तृणका स्वरस ६ प्रस्थ लेव, सबको यथा विधिसे मिलाकर छत्तम ताँबेके पात्रमें पकावे । इस तेलको पान करनेसे अथवा नस्य कर्ममें प्रयोग करनेसे सिद्ध, महादद्भुकिलासकुष्ठ, विचर्चिका, व्यंग विसर्प पामा और सर्ष

प्रकारके गलित त्वचाके समग्र विकार शमन होते हैं । यह तेल-वर्णको उज्ज्वल करनेवाला, कातिको उत्पन्न करनेवाला और अपूर्व शोभाको प्रकट करनेवाला है ॥ २२६-२३० ॥

मरिचाद्यतैल ।

मरिचालशिलाहार्कपयोऽश्वारिजटात्रिवृत । शकृद्रसविशालारुद्धनिशायुग्दारुचन्दनैः ॥ २३१ ॥ कटुतैलं पचेत्प्रस्थं द्व्यर्क्षैर्विपपलान्वितैः । सगोमूत्रैस्तदभ्यङ्गाद्द्रुकुष्ठविनाशनम् । सर्वेष्वपि च कुष्ठेषु तैलमेतत्प्रशस्यते ॥ २३२ ॥

कालामिरच, हरिताल, मनशिल, आकका दूब, कनेरकी जड़, निसोत, गोबरका रस, इन्द्रायण, कूठ, हलदी, दारुहलदी, देवदारु और चन्दन यह प्रत्येक औषधि एक एक तोला और मीठा तेलिया ४ तोले लेव सबको मिलाकर यथा विधिसे एक प्रस्थ कड़वे तेलको पकावे । इस तेलमें पकते समयमें ४ सेर गोमूत्र डाले सिद्ध होजाने पर फिर इसकी मालिस करनेसे दाद और कुष्ठ नष्ट होते हैं । यह तेल सर्वप्रकारके कुष्ठोंमें हितकारी है ॥ २३१ ॥ २३२ ॥

द्वितीयमरिचाद्यतैल ।

मरिचं त्रिवृता दन्ती क्षीरमार्क शकृद्रसः । देवदारुहरिद्रे द्वे मांसीकुष्ठं सचन्दनम् ॥ २३३ ॥ विशालाकरवीरश्च हरितालं मनःशिला । चित्रको लाङ्गलीलाक्षा विडङ्गं चक्रमर्दकम् ॥ २३४ ॥ शिरीषं कुटजो निम्बं सप्तपर्णस्तुहामृताः । शम्याको नक्तमालोऽब्दः खदिरौ वाकुची वचा ॥ २३५ ॥ ज्योतिष्मती च पलिका विषस्य द्विपलं भवेत् । आढकं कटुतैलस्य गोमूत्रञ्च चतुर्गुणम् २३६ ॥ श्रुत्पात्रे लोहपात्रे वा शनैर्मृद्भिना पचेत् । हन्यात्तैलवरं ह्येतत्प्रलेपात् कौष्ठिकान् व्रणान् ॥ २३७ ॥ पामा-विचर्चिकाकंडूदद्भुविस्फोटकानि च ।

वलयः पलितं छाया नीली व्यंगं त-
थैव च ॥ २३८ ॥ अभ्यङ्गेन प्रणश्य-
न्ति सौकुमार्यञ्च जायते । प्रथमे
वयसि स्त्रीणां यासां नस्यं प्रदीयते ।
जरामप्यजरां प्राप्य न स्तना यान्ति
नम्रताम् ॥ २३९ ॥

कालीमिरच, निसोत, दन्ती, आकका दूध, गोवरका
रस, देवदारु, हल्दी, दारुहल्दी, वालछड, कूठ, चन्दन,
इन्द्रायण, कनेर, हरिताल, मैनशिल, चीता, कलि-
हारी, लाख, वायविडंग, चकवड, सिरस, कुडेकी
छाल, नीमकी छाल, सतोना, थूहर, गिलोच, अमल-
तास, करंज, नागरमोथा, खैर, वावची, वच और
मांलकागुनी ये प्रत्येक औषधि चार २ तोले, मांठा
विप ८ तोले, कडवा तेल १ आढक और गोमूत्र ४
आढक परिमाण लेवे । सबकां मिलाकर यथाविधिसे
मिट्टीके पात्रमें या लोहेके पात्रमें धीरे धीरे मन्द मन्द
अग्निसे तेलको पकावे । इस तेलका लेप करनेसे कुष्ठ-
के व्रण नष्ट होते हैं । यह तेल-पामा, विचार्चिका, कंहु,
ददु, विस्फोटक, वली, पलित, छाया, नीलिका और
व्यंग इन सबको केवल अभ्यंग मात्रसे नष्ट करता
है तथा सुकुमारताको उत्पन्न करता है । प्रथम अव-
स्थामें जिन स्त्रियोंको इस तेलका नास दिया जाता है
तो जराको प्राप्त होने पर भी उनके स्तन नम्रताको
प्राप्त नहीं होते ॥ २३३-२३९ ॥

तृतीयमरिचाद्यतैल ।

मरिचं पिप्पलीकुष्ठमर्कशीरं शकृद्र-
सः । देवदारु हरिद्रे द्वे मांसीलोहित-
चन्दनम् ॥ २४० ॥ विशाला करवीर-
ञ्च हरितालं मनःशिला । एतैरर्द्धै-
र्लैर्भागैर्गृहीतैः श्लक्ष्णपिष्टितैः ॥ २४१ ॥
कटुतैलस्य च प्रस्थं गोमूत्रं स्याच्चतु-
र्गुणम् । मृद्राण्डे लोहभाण्डे वा शनै-
र्मृद्वग्निना पचेत् ॥ २४२ ॥ तत्तैलं म-
धुपर्णाभ्यां निषण्णमवतारयेत् । एते-
नैवोपशाम्यन्ति कोमला त्वक् प्रजा-
यते ॥ २४३ ॥ प्रस्थितानि च श्वित्राणि

तैलेनानेन म्रक्षयेत् । अपि त्रिवार्षिकं
श्वित्रं शमं नयति तत्क्षणात् ॥
॥ २४४ ॥ बलीवर्दस्तुरङ्गो वा गजो वा
व्याधिपीडितः । त्रिभिर्बस्तिभिरत्य-
र्थं भवेन्मारुताविक्रमः ॥ २४५ ॥ या-
साञ्च दीयते नस्यं स्त्रीणां प्रथमयौ-
वने । जरासमयमासाद्य स्तना नो
यान्ति विश्लथम् ॥ २४६ ॥ पुरुष-
स्यापि यस्येदं दीयते नस्यकर्मणि ।
योजनानि व्रजत्यष्टौ श्रमं नाप्नोत्यसौ
पथि ॥ अष्टादशानां कुष्ठानां तैल-
मेतद्विनाशनम् ॥ २४७ ॥

कालीमिरच, पीपल, कूठ, आकका दूध, गोवरका
रस, देवदारु, हल्दी, दारुहल्दी, वालछड, लालच-
न्दन, इन्द्रायण, कनेर, हरिताल और मैनशिल ये
प्रत्येक औषधि दो दो तोले लेकर बारीक पीस लेवे
तथा कडवा तेल १ प्रस्थ और गोमूत्र ४ प्रस्थ सबको
एकत्र मिलाकर यथाविधिसे तेलको मिट्टीके वासनमे
अथवा लोहेके वासनमे मन्द मन्द अग्निमें धीरे धीरे
पकावे । फिर इस तेलकां गिलोयसे सुवासित करके
उतार लेवे । इस तेलका लेप करनेसे-समस्त त्वचाके
विकार नष्ट होते हैं और शरीरकी त्वचा कोमल हो
जाती है, इस तेलको बारम्बार लगानेसे तत्काल तीन
वर्षका पुराना भी श्वित्रकुष्ठ नष्ट हो जाता है । इस
तेलकी केवल तीन वस्ति प्रदान करनेसे वातसे पीडित
वृषभ, घोडे और हाथी भी व्याधियोंसे रहित होकर
पवनके समान पराक्रमको प्राप्त होते हैं । इस तेलका
प्रथम अवस्थामें जिन स्त्रियोंको नास दिया जाता है
उनके स्तन इसके प्रभावसे वृद्ध अवस्थाके प्राप्त होने-
पर भी शिथिल नहीं होते हैं । और जिन पुरुषोंको इस
तेलका नास दिया जाता है वे मनुष्य इस तेलके प्रभा-
वमें आठ योजन तक बराबर चले जाते हैं । और कुष्ठ
भी श्रम मालूम नहीं होता । यह तेल-अठारह प्रका-
रके कुष्ठोंको नष्ट करनेवाला है ॥ २४०-२४७ ॥

चतुर्थमरिचाद्य तैल ।

गुडूचीदारुकुष्ठञ्च शृङ्गवेरं पुनर्नवा ।
राम्नाबलामातुलुङ्गं त्रिफलांशं पृथक्

पृथक् ॥ २४८ ॥ जलद्रोणे समावाप्य
 प्रादशेषं समुद्धरेत् । विपाच्य तद्रसं
 श्राद्धं कल्कनैतान् प्रदापयेत् ॥ २४९ ॥
 मरिचं त्रिफलां दन्तीमर्कशीरं शकृ-
 द्रसः । दारुकुष्ठं हरिद्रे द्वे लोमसी
 रक्तचन्दनम् ॥ २५० ॥ एतेषां पलि-
 कान्भागान्विषस्यार्द्धपलं भवेत् ।
 गोमूत्रे पेपितं सर्वं सुसूक्ष्मन्तु समा-
 चरेत् ॥ २५१ ॥ कटुतैलपलं त्रिंश-
 च्छनैर्मृद्भिना पचेत् । एतन्नस्यं प्र-
 दातव्यं सर्वरोगापहं शुभम् ॥ २५२ ॥
 दन्तरोगेषु सर्वेषु शिरारोगे गलग्रहे ।
 पूतिनाशे पूतिमुखे तथैवार्द्धावभेद-
 के । गलगण्डे मुखव्यङ्गे तथैव कर्क-
 शत्वचि ॥ २५३ ॥ प्रथमे वयसि स्त्री-
 णां नस्यं देयं यथाविधि । न पत-
 न्ति स्तनास्तासां सौकुमार्यश्च जा-
 यते ॥ २५४ ॥ पुरुषस्याथवा नस्यं
 दीयते यस्य कस्यचित् । स याति
 योजनान्यष्टौ न श्रमं मन्यते क्वचि-
 त् ॥ २५५ ॥ दद्रुकिटिभकुष्ठानि म-
 ण्डलानि विचार्चिकाः । स्रक्षणादेव
 शाम्यन्ति ये च शाखाश्रया गदाः
 ॥ २५६ ॥ वातभग्नस्तुरङ्गो वा वृषो
 वावायुपीडितः । वातामयाभिभूतो
 यः पुरुषो मन्दगोऽपि वा ॥ बलवेगो
 भवेत्तेषां बस्तिभिश्च त्रिभिस्त्रिभिः
 ॥ २५७ ॥ शीर्णकर्णांगुलीघ्राणः पि-
 वेदग्निबलेन यः । न विकारं तथा
 तस्य भवेद्देहः पुनर्नवः ॥ २५८ ॥

गिलोय, देवदारु, कूठ, अदरक, पुनर्नवा, राय-
 सन, खिरैटी, विजौरानीवू और त्रिफला ये प्रत्येक
 औषधि समान भाग लेकर एक द्रोण जलमे पकावे
 जब पकते २ जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब
 उतार कर छान लेवे । फिर इस काथमे कालीभिरच,
 त्रिफला, दती, आमका दूध, गोबरका रस, देवदारु,

कूठ, हलदी, दारुहल्दी, काकजंघा और लालचन्दन ये
 प्रत्येक औषधि चार २ तोले और मीठा विप दो तोले
 सबको गोमूत्रमे वारीक पीसकर ३० तोले कढ़वे तेलमें
 धीरे २ मंद् २ आगसे पकावे । इस तेलकी नास देनेसे
 सर्वप्रकारके रोग नष्ट होते हैं । यह तेल-सर्वप्रकारके
 दन्तरोग, शिरारोग, गलग्रह, जिनके नासिकामें दुर्ग-
 न्ध आती है; जिनके मुखमे दुर्गन्ध आती है, अर्धाव-
 भेदक, गलगण्ड, मुखकी झाई और त्वचाकी कर्क-
 शता इन सब विकारोको शमन करता है । जिन
 स्त्रियोको प्रथम अवस्थामे इस तेलका नास दिया
 जाता है उनके इस तेलके प्रभावसे कदापि स्तन नहीं
 गिरते हैं तथा सुकुमारता उत्पन्न होती है और इस
 तेलका जिस पुरुषको नास दिया जाता है वह मनुष्य
 इस तेलके प्रभावसे विनाश्रम आठ योजन तक चला
 जाता है एव दद्रु, किटिभकुष्ठ, मण्डलकुष्ठ और वि-
 चार्चिका ये सब विकार इस तेलके लगाने मात्रसे ही
 शमन हो जाते है और सम्पूर्ण शाखाश्रयगत रोग
 नष्ट होते है । जिन घोडोके वातसे अंग दृढ गये है,
 जो वृषभ वायुसे पीडित है और जिन मनुष्योंकी
 अत्यन्त वायुसे दुःखित होनेके कारण इन्द्रियं शिथिल
 होगई है उनके केवल तीन वस्ति लगानेसे शरीर
 निरोग होकर बल और वेगकी वृद्धि होती है । जिन
 मनुष्योंके कान, अंगुली और नासिका गल गई है वे
 मनुष्य यदि इस तेलको अग्निके बलानुसार सेवन
 करे तो उनके शरीरमे किसी प्रकारका विकार
 नहीं रहता और शरीर फिरसे नवीन होजाता है
 ॥ २४८-२५८ ॥

विषतैल ।

नक्तमालं हरिद्रे द्वे चार्कं तगरमेव
 च । करवीरं वचाकुष्ठमास्फोटं रक्त-
 चन्दनम् ॥ २५९ ॥ मालती सप्तपर्णश्च
 मञ्जिष्ठा सिन्दुवारकम् । एषामर्धप-
 लान्भागान्विषस्यापि पलं भवेत् ॥
 ॥ २६० ॥ चतुर्गुणे गवां मूत्रे तैलप्रस्थं
 विपाचयेत् ॥ २६१ ॥ श्वित्रविस्फो-
 टकिटिभकीटलूताविचार्चिकाः । क-
 ण्डूकच्छूलविकाराश्च ये व्रणा विष-
 दूषिताः ॥ विषतैलमिदं नाम सर्व-
 व्रणविशोधनम् ॥ २६२ ॥

करंज, हलदी, दारुहलदी, आकका दूध, तगर, कनेर, वच, कूठ, कोडली, लालचन्दन, मालती, सतौना, मजीठ और समालु ये प्रत्येक, औषधि दो २ तोले मीठाविष ४ तोले इन सबको चौगुने गोमूत्रमे डालकर एक प्रस्थ तेलको पकावे । श्वित्रकुष्ठ, विस्फोट, किटिभ, कृमि, लूता, विचारिका, कण्डू, कच्छुविकार और जो व्रण विषसे दूषित हैं उन सबको यह विषतैल अवश्य दूर करदेता है । यह तैल सर्व-प्रकारके व्रणोंको शुद्ध करता है ॥ २५९-२६२ ॥

सोमराजीतैल ।

सोमराजिहारीद्वे द्वे सर्षपारग्वधं ग-
दम् । करञ्जैडगजाबीजं गर्भं दत्त्वा
विपाचयेत् ॥ २६३ ॥ तैलं सर्षपसंभूतं
नाडीदुष्टव्रणापहम् । अनेनाशु प्रशा-
म्यन्ति कुष्ठान्यष्टादशैव तु ॥ २६४ ॥
नीलिकापिडिकाव्यंगं गम्भीरं वात-
शोणितम् । कण्डून्त्यच्छप्रशमनं क-
च्छूपामाविनाशनम् ॥ २६५ ॥

वापची, हलदी, दारुहलदी, सरसो, अमलतास, कूठ, करंज और चक्रवडके बीज इन औषधियोंके कल्कके द्वारा सरसोंके तेलको पकावे । यह तैल नाडीव्रण, दुष्टव्रण और अठारह प्रकारके कुष्ठोंको शीघ्र ही नष्ट करता है । तथा नीलिका, पिडिका, व्यंग (झाँई), गम्भीर वातरक्त, कण्डू, न्यच्छ, कच्छु, और पामारोगको दूर करता है ॥ २६३-२६५ ॥

श्वेतकरवीराद्यतैल ।

श्वेतकरवीरमूलं विषांशसाधितं गवां
मूत्रे । चर्मदलसिध्मपामाविस्फोटकि-
टिभजितैलम् ॥ २६६ ॥

सफेद कनेरकी जड़ और मीठाविष इनके कल्कके द्वारा गोमूत्रमें तेलको पकावे । यह तैल चर्मदल, सिध्म, पामा, विस्फोट और किटिभकुष्ठको नष्ट करता है ॥ २६६ ॥

गण्डीराद्यतैल ।

गण्डीरिकाचित्रकमार्कवार्ककुष्ठद्रुम-
त्वक्लवणैस्समूत्रैः । तैलं पचेन्मण्डलद-
द्रुकुष्ठदुष्टव्रणारूकिटिभापहारि २६७ ॥

गण्डीर (समष्टिलवृक्ष अथवा थूहर), चीता, आक, हुलहुल, कूठकी छाल और सैधानमक इनके कल्कके द्वारा गोमूत्रमें तेलको पकावे । यह तैल मंडल, दद्रु, कुष्ठ, दुष्टव्रण और किटिभकुष्ठको दूर करता है ॥ २६७ ॥

स्तुहाद्यतैल ।

स्तुहीक्षीरं विडंगानि अर्कक्षीरं च
लांगली । बलापलाशबीजानि को-
शातकयोऽथ पिप्पली ॥ २६८ ॥ सिद्धं
तैलन्तु गोमूत्रं कुष्ठानां नाशनं पर-
म् । पामापहरणं प्रोक्तं पूयघ्नं व्रणरो-
पणम् ॥ २६९ ॥

थूहरका दूध, वायविडंग, आकका दूध, कालिहारी, खिरौटी, ढाकके बीज, तोरई और पपिल इनके कल्क के द्वारा गोमूत्रमे तेलको पकावे । यह तैल, कुष्ठको नाश करनेवाला, पामाको दूर करनेवाला, राधको हर-नेवाला और व्रणको भरनेवाला है २६८ ॥ २६९ ॥

कनकविन्दुनामारिष्ट ।

खदिरकषायद्रोणं कुम्भे घृतभाविते
समावाप्य । प्रक्षेप्याः पृथक् पालिकाः
सर्वास्तु चूर्णितास्तस्मिन् ॥ २७० ॥
त्रिफलात्रिकटुकरजनी मुस्तारुष्क-
रविडङ्गवाक्चिकाः । सुवर्णत्वक् छि-
न्नरुहा धातकी मधुशतपलं मास-
म् ॥ २७१ ॥ विदधीत धान्यमध्ये
प्रातःप्रातः पिवेत्ततो युक्तया । मासेन
महाकुष्ठं हन्त्यनल्पश्च पक्षेणार्शः ॥
॥ २७२ ॥ श्वासभगन्दरकासकिलास-
प्रमेहशोफांश्च । स भवति कनकवर्णः
पित्वारिष्टं कनकविन्दुश्च ॥ २७३ ॥

खैरका काथ एकद्वेण परिमाण लेकर घीके चिकने वासनमे भरकर रख देवे, फिर उसमे त्रिफला, त्रि-कुटा, हलदी, नागरमोथा, भिलावे, वायविडंग, वापची धतूरेकी छाल, गिलोय और धायके फूल इनका चूर्ण चार २ तोले और शहद ४०० तोले डाल देवे । इसको एक महीनेपर्यन्त धानोके ढेरमे गाड़ देवे फिर

प्रतिदिन प्रातःकाल विधिपूर्वक पान करे । यह औ-
पाधि एक महीनेमें कुष्ठको नष्ट करतो है । एक पक्षमें
बवासीरको दूर करदेती है । तथा श्वास, भगन्दर,
खॉसी, किलास, प्रमेह और सूजन ये सब रोग गमन
होते है । जो मनुष्य इस कनकविन्दुअरिष्टका
अभ्यास करता है उसका शरीर सुवर्णके समान हो
जाता है ॥ २७१-२७३ ॥

पथ्यापथ्य ।

पक्षात्पक्षाच्छर्दनान्यभ्युपेयान्मासा-
न्मासाच्छोधनं चाप्यधस्तात् । उप-
हात्र्यहात्रस्यनिष्ठीवनश्च मासेष्वसृ-
ङ्मोक्षयेत् षट्सु षट्सु ॥ २७४ ॥

कुष्ठरोगमें एक एक पक्षके बाद वमन, एक एक
महीनेमें विरेचन, तीन २ दिनमें नस्य और निष्ठीवन
इसी प्रकार छ' छ महीनेमें रक्तमोक्षण कराना
चाहिए ॥ २७४ ॥

शालिषष्टिकगोधूमयवमुद्गादयो हि-
ताः । पुराणाः कुष्ठिनां तिक्तं शाकं
जांगलसंयुतम् ॥ २७५ ॥

कुष्ठरोगमें शालिधानके चावल, साठीके चावल,
गेहूँ जौ और मूंग आदि ये सब पुराने हितकारी है
तथा जांगल देशके जीवोंके मासके साथ कडेवे शाक
पथ्य है ॥ २७५ ॥

नीचरोमनखो यस्तु नित्यमौषधत-
त्परः । योषिन्मांससुरावर्जी कुष्ठी
कुष्ठादपोहति ॥ २७६ ॥

जो कुष्ठरोगी रोम और नखको सदैव काटता
रहता है जो नित्य औषधि सेवन करता है और जो
खी मांस एव मदिराका सेवन नहीं करती वह अवश्य
कुष्ठसे मुक्त होजाती है ॥ २७६ ॥

श्वित्रकुष्ठकी चिकित्सा ।

श्वित्रिणो हतदोषस्य हनरक्तस्य वा-
ऽसकृत । खदिरांबुयवान्नानां तृप्तस्य
मलयूरसः । सगुडः शस्यते पाने
यवागूमण्डभोजिनः ॥ २७७ ॥

श्वित्रकुष्ठरोगके बारंबार रक्तमोक्षण कराकर दो-
षोंको हरण करे और खैरका काथ तथा जौका अन्न

देवे तृप्त होनेके पश्चात् कटूमरके रसमें गुड डालकर
पीनेको देवे और खानेके लिये मंडके साथ यत्रागू
देवे ॥ २७७ ॥

अशुद्धे तत्र ये स्फोटा जायन्ते तांश्च
कण्टकैः । भित्वा लेपैः प्रदेहेस्तान्
क्षाराग्निभ्यां प्रसाधयेत् ॥ २७८ ॥

श्वित्रकुष्ठमें जो अशुद्ध स्फोटक हो ओर उनमें
काटे उत्पन्न होजायें तो उनको अनेकप्रकारके लेपा-
दिकसे फोडे तथा क्षार और अग्निके द्वारा चिकित्सा
करे ॥ २७८ ॥

खदिरामलककषायं बाकुचिवीजा-
न्वितं पिबेन्नित्यम् । शङ्खेन्दुकुन्दधवलं
श्वित्रं हन्तीह तच्छिग्रम् ॥ २७९ ॥

खैर और आमलेके काथमें वापचीके बीजोंका
चूर्ण डालकर नित्य पान करनेसे श्वित्र, चन्द्र और
कुन्दके समान श्वेत श्वित्रकुष्ठ भी गांत्र नष्ट हो जाता
है ॥ २७९ ॥

कुडवमवलगुजबीजं हरितालचतुर्थ-
भागसंमिश्रम् । मनःशिलातोलका
र्द्धं गुञ्जाफलमग्निमूलश्च ॥ गोमूत्रेण
च पिष्टं सवर्णकरणं परं श्वित्रे ॥ २८० ॥

वापचीके बीज १६ तोले, हरिताल ४ तोले, मैन-
शिल, चौटली और चीतेकी जड ये प्रत्येक औषधि
छ' छ. मासे लेकर गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे
श्वित्र कुष्ठ नष्ट होकर शरीरके वर्णके समान वर्ण हो
जाता है ॥ २८० ॥

दग्ध्वा च गोः शकृत्क्षारं तन्मूत्रेणैव
गालितम् । प्रच्छित्तं बर्हिपित्ताक्तं स-
द्यः सावर्ण्यमाप्नुयात् ॥ २८१ ॥

गोबरको जलाकर उसके क्षारको ग्रहण करे फिर
उस क्षारको गोमूत्रमें डालकर मयूरका पित्त मिला-
कर लेप करनेसे तत्काल श्वित्रकुष्ठका वर्ण शरीरके
वर्णके समान होजाता है ॥ २८१ ॥

श्वेतकुष्ठं व्रजत्यस्तं पक्षार्धेनाधिकन
वा । गिरिकर्ण्यास्तु कृष्णाया म्
लेन परिलेपितम् ॥ २८२ ॥

काली कोइलीकी जडको पीसकर लेप करनेसे एक सप्ताहमे अथवा कुछ अधिक दिनेमे ज्वेतकुष्ठ नष्ट होता है ॥ २८२ ॥

**कुण्टीशिखिपित्तेन भस्मवानालको-
द्रवम् । गजदन्तेन मालत्याः क्षारो
वा श्वित्रनाशनः ॥ २८३ ॥**

मनशिलको मोरके पित्तके साथ अथवा हरिता-
लके भस्मको मोरके पित्तके साथ या हाथीके दाँतके
साथ मालतीके रसको पीसकर लेप करनेसे श्वित्रकुष्ठ
नष्ट होता है ॥ २८३ ॥

**स्तुगर्कजातीपृतीकसुवर्णहरिपल्लावाः ।
मृत्रपिष्टाः प्रलेपेन श्वित्रद्रुवण-
च्छिद्रः ॥ २८४ ॥**

शूहर, आक, चमेली, दुर्गंध करज और धतूरेके
हरे पत्ते इन सबको एकत्र गोमूत्रमें पीसकर लेप
करनेसे श्वित्र, दद्रु और व्रण नष्ट होजाते हैं ॥ २८४ ॥

**शुनोस्थिकदलीभस्मकाकस्य विडप्र-
लेपतः । श्वित्रमुग्रं निहन्त्येतच्चत्वारिं-
शदिनैष्किल ॥ २८५ ॥**

कुन्तीकी हड्डी,केलेकी भस्म और काँवेकी विष्टा इन
सबको एकत्र मिलाकर लेप करनेसे चालीम दिनमें
अत्यन्त उग्र श्वित्रकुष्ठभी नष्ट होजाता है ॥ २८५ ॥

**सुमनःशिलाविडंगं कासीसरोचना
कनकपुष्पी च । श्वित्राणां प्रशमार्थं
ससैन्धवं लेपनं दद्यात् ॥ २८६ ॥**

चमेली, मनशिल, वायविडंग, कसीस, गोररोचन,
अमलतास और सैधानमक इन सबको एकत्र पीस-
कर लेप करनेसे श्वित्रकुष्ठ नष्ट होता है ॥ २८६ ॥

**अयोरजःकृष्णतिलाञ्जनानि साव-
ल्लुजान्यामलकानि दग्ध्वा । पिष्टा-
नि भृङ्गस्य सकृद्रसेन हन्यात्किला-
सं परिवृष्य लेपात् ॥ २८७ ॥**

लोहेका चून, काले तिल, रसौत, वापची और
आमले इन सबको एकत्र भोंगरेके रसमे पीसकर
श्वित्र कुष्ठपर घिसनेसे श्वित्रकुष्ठ अवश्य नष्ट होजाता
है ॥ २८७ ॥

**दासीकुरण्टस्य सितस्य पुष्पमादि-
त्यवलयञ्जनवह्निनीली । पुष्पाणि तेषां
स्वरसं प्रपीड्य तल्लोहचूर्णाञ्जनसं-
युक्तम् ॥ २८८ ॥ विषृष्य पूर्वं सक-
लान् व्रणास्तु ततः प्रयोगेन पुनः
प्रलिम्पेत् । सितानि रोमाणि निह-
न्ति शीघ्रं कृष्णानि कुर्यादपि यो-
गकोऽयम् ॥ २८९ ॥**

नीले फूलका पियावाँसा, पीले फूलका पियावाँसा,
सफेद फूलका पियावाँसा, हुलहुल, रसौत, चीता
और नीली इन सबके फूलका स्वरस लेकर उसमें
लोहेका चूर्ण और रसौत डालकर इससे श्वित्रकुष्ठके
दागोंको खूब घिसे फिर इसका लेप करे तो शीघ्रही
सफेद रोम नष्ट होकर तत्काल काले रोम होजाते
हैं ॥ २८८ ॥ २८९ ॥

**कपोतवंकालशुनस्य शीघ्रं ससैन्धवं
चित्रकमूलमिश्रम् । ततश्च तेषां स्व-
रसेन मिश्रं व्रणप्रलेपाञ्जननं हि रो-
म्णाम् ॥ २९० ॥**

ब्रह्मी, लशुन, सैधानमक और चीतेकी जड इन
सबको एकत्र पीसकर इन्हींके स्वरसमें मिलाकर लेप
करनेसे रोम उत्पन्न होजाते हैं ॥ २९० ॥

**कटुकालावुसव्योषहिंघ्राकहयमार-
काः । कुष्ठं वल्गुजभल्लातस्तुहीमू-
लानि सर्षपाः ॥ २९१ ॥ बिल्वका-
रिष्टपीलूनां पत्राण्यारग्वधस्य च ।
त्रिफलामुस्तजीमूतविशालामूत्रपेषि-
तः ॥ २९२ ॥ गोगजाश्वाजमूत्राणा-
माढकं त्वाढकं पचेत् । स्तुह्यर्कक्षा-
रकुडवं तैलं युक्त्या प्रदापयेत् ॥
॥ २९३ ॥ पचेदावीं प्रलेपन्तु घृष्टा
कुष्ठानि लेपयेत् । श्वित्राणि द्विष्र-
लितानि यान्ति नाशमशेषतः ॥ २९४ ॥**

कुटकी, कडवी लौकी, त्रिकुटा, हींस, आक, कनेर,
कूठ, वापची, भिलावे, शूहरकी जड़, सरसो, बेल नीम,
पीलू और अमलतासके पत्ते, त्रिफला, नागरमोथा,

बंदाल और इन्द्रायण इन सबको समान भाग लेकर गोमूत्रमे पीसकर कल्क बनावे तथा गाय, हाथी और घोडा इन प्रत्येकका मूत्र एक एक आठक परिमाण लेवे, थूहरका और आकका क्षार एक एक कुडव परिमाण लेवे, इन सबको एकत्र मिलाकर इनमें तेल डाल कर यथाविधिसे पकावे । जबतक करछीसे न लगे तब तक पकावे । इसको श्वित्रके दागोंपर चारम्बार घिसकर लगावे । इससे सर्व प्रकारके बहुत पुराने श्वित्रकुष्ठ नष्ट होते हैं ॥ २९१-२९४ ॥

सोमराजी घृत ।

खदिरस्य पलान्यष्टौ सोमराज्याः पलद्वयम् । जलाठकद्वये साध्यं यावत्पादावशेषितम् ॥ २९५ ॥ काथ्यमानश्च मृद्भ्रौ घृतप्रस्थं विपाचयेत् । चतुष्पलं सोमराज्याः खदिरस्य पलं भिषक् ॥ २९६ ॥ पटोलमूलं त्रिफलां त्रायमाणां दुरालभाम् । कल्कार्थं योजयेदेतान्कार्षिकाश्लक्ष्णपेषितान् ॥ २९७ ॥ पलद्वयं कौशिकस्य शुद्धस्यात्र प्रदापयेत् । सिद्धं सर्पिरिन्दं नश्येच्छुत्रमम्भ इवानलम् ॥ २९८ ॥ अष्टादशानां कुष्ठानां परमं भेषजं मतम् । आमवातापतन्त्राणां पांडुप्रदरशोषिणाम् ॥ २९९ ॥ किलासघ्नं च कंडूघ्नं दीपनं पाचनं तथा । सोमराजीघृतं नाम निर्मितं ब्रह्मणा पुरा ॥ ३०० ॥

खैर ३२ तोले और वापची ८ तोले इनको दो आठक जलमे पकावे, जब पकते पकते जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छानलेवे फिर इस काथमे एकप्रस्थ घी, वापची १६ तोले, खैरसार ४ तोले तथा पटोलकी जड़, त्रिफला, त्रायमाण और धमासा ये प्रत्येक औषधि एक एक तोला लेकर वारीक पीसकर एव शुद्ध गूगल ८ तोले, इन सबको यथा विधिसे मिलाकर विधि पूर्वक घृतको सिद्ध करे । यह घृत शीघ्र ही सर्व प्रकारके श्वित्रकुष्ठको नष्ट करता है । जिसप्रकार जल अग्निको नष्ट करता

है । यह घृत-अठारह प्रकारके कोठोंकी परम औषधि है । तथा आमवात, अपतन्त्र, पाण्डु, प्रदर, राजयदमा, किलास और कण्डूको नष्ट करताह तथा दीपन और पाचन है । यह सोमराजीघृत-परिच्छे ब्रह्मार्जने निर्माण किया है ॥ २९५-३०० ॥

निलीघृत ।

त्रिफलाठकं तथा प्रस्थावयसो रजसो मती । वायसीकाकमाचीभ्यां द्वे तुले शङ्गिनतुला ॥ ३०१ ॥ द्विद्रोणेऽपां पचेदतत्पादभागावशेषितम् । घृतप्रस्थं तु विपचेद्भ्रमं चैतत्समाचरेत् ॥ ३०२ ॥ वरुणं वत्सकफलं व्यूषणं देवदारु च । निदग्धिकां भृङ्गराजं पारावतपदीमपि ॥ ३०३ ॥ नीलकं नाम विख्यातं घृतं कुष्ठविनाशनम् । श्वित्राणि रञ्जयेच्चैतत्पानाभ्यञ्जनयोजितम् । पामाविचर्चिकासिध्मकिटभानि च नाशयेत् ॥ ३०४ ॥

त्रिफला १ आठक, लोहेका चून २ प्रस्थ, कौ-आढोढी और मकोय २ तुला परिमाण और शंख पुष्पी १ तुला इन सबको दो द्रोण जलमे पकावे । जब पकते पकते जल चौथाई भाग शेष रहजाय तब उतार कर छान लेवे । फिर इस काथमे १ प्रस्थ घृत तथा वरनाकी छाल, इन्द्रजौ, त्रिकुटा, देवदारु, कटेरी, भोंगरा और हसपदी इन सबका कल्क डाल कर यथाविधिसे घृतको सिद्ध करे । इसको नीलकघृत कहते हैं । यह कुष्ठको अवजय नष्ट करता है । इसको पान और अभ्यग कर्ममे प्रयोग करनेसे श्वित्रकुष्ठ नष्ट होता है । तथा पामा, विचर्चिका, सिध्म और किटिभकुष्ठ दूर होजाता है ॥ ३०१ ॥ ॥ ३०२ ॥ ३०३ ॥ ३०४ ॥

महानीलीघृत ।

आरग्वधं वायसी च सुरमा मदयन्तिकी । एकैकस्य तुला देया त्रिफलं चाठकद्वयम् ॥ ३०५ ॥ दन्ती दारु हरिद्रा च कुडवं वरुणत्वचम् । चित्रकं चार्कमूलश्च काकमाची निद-

धिकारः ॥ ३०६ ॥ एषां दशपलान्मा-
गांश्चतुर्दशोऽम्भसः पचेत् । अष्ट-
भागावशिष्टन्तु घृतं पुनरधिश्रयेत् ॥

॥ ३०७ ॥ दधि सर्पिश्च दुग्धं च गो-
मूत्रं च शकृद्रसम् । आढकाढकमे-
तेषां गर्भं चैनं समावपेत् ॥ ३०८ ॥

अवलगुजं सकटुकं नक्तमालफलानि
च । त्रिफलाचित्रको दन्ती मुस्तं
कटुकरोहिणी ॥ ३०९ ॥ पिचुमन्दस्य

शिग्रोश्चसंगुदस्यफलानि च । किरा-
ततित्तकं श्यामा नीलिनीनीलमु-
त्पलम् ॥ ३१० ॥ एतैः सिद्धं घृतं

स्त्राव्यं पाययेच्छ्वित्ररोगिणाम् । महा-
नीलमिति ख्यातमेतच्छ्वित्रहरं पर-
म् ॥ ३११ ॥ भगन्दरं तथाशांसि

कृमीनपि विनाशयेत् । अष्टादशानां
कुष्ठानां सर्पिरेताञ्चिकित्सितम् ॥ ३१२ ॥
अथर्वविहिते दीप्ते ब्रह्मदण्ड इवाश-
निः । विशेषतश्च श्वित्राणि रञ्जयेच्च

भिनात्ति च । प्रयोगतः सेव्यमानं पाने-
नाभ्यञ्जनेन च ॥ ३१३ ॥

अमलतास, कौआठोडी, तुलसी और मोतिया ये
प्रत्येक औपधि एक एक तुला परिमाण लेवे, त्रिफला
२ आढक परिमाण, दन्ती, दारुहलदी और वरनेकी
छाल यह प्रत्येक एक २ कुडव परिमाण, चीता,
आककी जड, मकोय और कटेरी ये प्रत्येक औपधि
दश दश पल लेकर चार द्रोण जलमे पकावे । जब
पकते पकते जल आठवाँ भाग बाकी रह जाय तब
उतार कर छानलेवे । फिर इस काथमे दही, घृत,
दूध, गोमूत्र और गोवरका रस ये प्रत्येक पदार्थ
एक २ आढक परिमाण तथा वागची, त्रिकुटा, करंजके
फल, त्रिफला, चीता, दन्ती, नागरमोथा, कुटकी,
नीमके बीज, सहिजनके बीज, हिगोटके बीज,
चिरायता, अनन्तमूल, नील और नीले कमल इन
सबका कल्क डालकर यथाविधिसे घृतको पकावे ।
यह घृत-श्वित्ररोगियोंको पान कराना चाहिये । यह

महानीलघृत-श्वित्रको अवश्य नष्ट करता है । तथा
भगन्दर, ववासीर, कृमिरोग और अठारह प्रकारके
कुष्ठोकी परमोत्तम औपधि है । यह विशेष करके
श्वित्रकुष्ठके वर्णको बदलता और नष्ट करता है ।
इसको पान और अभ्यंग कर्ममे प्रयोग करना
चाहिए ॥ ३०५-३१३ ॥

ज्योतिष्मतीतैल ।

मयूरकक्षारजलैः सप्तकृत्वः परिश्रुते ।

सिद्धं ज्योतिष्मतीतैलमभ्यङ्गाच्छ्वि-
त्रनाशनम् ॥ ३१४ ॥

नीलेथोथेकं क्षार जलमे सातवार मालकांगुनीके
तेलको पकावे । इस तेलकी मालिग करनेसे श्वित्रकुष्ठ
नष्ट होता है ॥ ३१४ ॥


विषतैल ।

कुष्ठाधिकारनिर्दिष्टं विषतैलमिहो-
च्यते ॥ ३१५ ॥

कुष्ठरोगमे जो विषतैल कहा है वह उस श्वित्रकु-
ष्ठमे भी प्रयोग करना चाहिये ॥ ३१५ ॥

इति श्रविगसेने भाषाटीकायां
कुष्ठश्वित्रनिदानचिकित्सा-
धिकार समाप्त ॥ ५७ ॥

अथ उदरशीतपित्तकोठाधिकार ।



शीतमारुतसंस्पर्शात्प्रदुष्टौ कफमा-
रुतौ । पित्तेन सह संभूय बहिरन्त-
र्विसर्पतः ॥ १ ॥

शीतल पवनके लगनेसे दुष्ट हुए कफ और वायु
अपने कारणसे दूषित हुए पित्तके साथ मिलकर
त्वचा तथा रुधिर आदिमे फैलते हैं तब उससे शीत-
पित्तादि रोग होते हैं ॥ १ ॥

शीतपित्तके पूर्वरूप ।

पिपासारुचिहृद्भासदेहसादाङ्गौर-

वमम् । रक्तलोचनता तथां पूर्वरूप-
स्य लक्षणम् ॥ २ ॥

तृणा, अरुचि, उबकाई, शरीरमें ग्लानि, अगोंमें
भारीपन और नेत्रोंमें लाली ये शीतपित्तादिके पूर्व
लक्षण है ॥ २ ॥

उदरं या शीतपित्तके लक्षण ।

वरटीदृष्टसंस्थानः शोफः सञ्जायते
बहिः । सकण्डूतोदबहुलश्छर्दिज्वर-
विदाहवान् ॥ ३ ॥ उदरमिति तं
विद्याच्छीतपित्तमथापरे । वाताधिकं
शीतपित्तमुदरंस्तु कफाधिकः ॥ ४ ॥
सोत्संगैश्च सरोगैश्च कडूमद्रिश्च म-
ण्डलैः । शेशिरः कफजो व्याधिरु-
दरः परिकीर्तितः ॥ ५ ॥

वरटी अर्थात् तैयोंके काटनेके समान शरीरकी
त्वचामें चकत्ते पड जायँ, उनमें खुजली हो, सुई
चुभानेकीसी पीडा अधिक हो, वमन, ज्वर और दाह
हो इसको संस्कृतमें उदरं, कोई वैद्य शीतपित्त और
हिन्दीभाषामें पित्ता कहत है । शीतपित्त वाताधिक
और उदरं कफाधिक होता है । शीतसे कफ कुपित
होकर शरीरके ऊपर लाल चकत्तोंका उत्पन्न करता
है । उनमें खुजली अधिक होती है तथा वह चकत्ते
मण्डलाकार, बीचमें गहरे और किनारेपर ऊँचे होते
हैं उसको उदररोग कहते हैं ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥

कोठके लक्षण ।

असम्यग्वमनोदीर्णपित्तश्लेष्मान्नविग्र-
हः । मण्डलानि सकण्डूनि रागव-
न्ति बहूनि च ॥ उत्कोठः सानुबन्ध-
श्च कोठ इत्यभिधीयते ॥ ६ ॥

अच्छेप्रकारसे वमनके न होनेसे अथवा वमनके
वेगको रोकनेसे अर्थात् वमनके वेगके आने पर पित्त
और कफ तथा अन्न इनको रोकनेसे बहुतसे लाल
खुजलीयुक्त चकत्ते उठे, उनको कोठ कहते हैं येही
कोठरोग यदि क्षणक्षणभरमें होकर नष्ट होजायँ
तो उत्कोठ कहा जाता है ॥ ६ ॥

उदरकी चिकित्सा ।

अत्राशु वमनं कार्यं पटोलारिष्टवा-
सकैः । त्रिफलापुरकृष्णाभिर्विरेक-
श्चात्र शस्यते ॥ ७ ॥

शीतपित्तरोगमें प्रथम शीघ्र ही कडवे परवल, नीम
और अडूमा इनके काथके द्वारा वमन करावे । तथा
त्रिफला, गूगल और पीपल इनके द्वारा विरेचन
करावे ॥ ७ ॥

त्रिफलाक्षौद्रसंयुक्तं पिवेद्वा नवका-
र्षिकम् । विसर्पेत्तममृतादि भिषग-
त्रापि योजयेत् ॥ ८ ॥

त्रिफलेके चूर्णको गहदके साथ खानेसे अथवा
नवकार्षिक गूगलको सेवन करनेसे शीतपित्तरोग नष्ट
होता है । विमर्षरोगोक्त अमृतादिगूगल भी इस
शीतपित्तरोगमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ८ ॥

सितां त्रिकटुसंयुक्तां गुडमामलकैः
सह । यवानीं पाययेच्चापि सव्योष-
क्षारसंयुताम् ॥ ९ ॥

शीतपित्तरोगमें त्रिकटुके साथ मिश्रीको, आमलो
के साथ गुडको तथा त्रिकुटा और जवाखार इनको
अजवायनके साथ खानेसे शीतपित्तरोग नष्ट होता
है ॥ ९ ॥

रास्नादेवाह्वत्रिफलां साश्वगन्धां श-
तावरीम् । यवानीं हिंशुसंयुक्तामु-
दरं विनिवृत्तये ॥ १० ॥

रायसन, देवदारु, त्रिफला, असगन्ध, शतावर,
अजवायन और हींग इनको एकत्र मिलाकर सेवन
करनेसे उदररोग नष्ट होता है ॥ १० ॥

प्रियालं तिल्वकं कालं खदिरः खदि-
रासनः । सप्तपर्णरिमेदा च गणोऽयं
स्यादुदरहा ॥ ११ ॥

चिरौंजी, लोध, वेर, खैर, खैरसार, विजयसार,
ततौना और दुर्गधकरज इन सब औषधियोंका
समूह उदर रोगको नष्ट करता है ॥ ११ ॥

सगुडं दीप्यकं यस्तु खादेत्पथ्यान्न-
भुङ्क्नरः । तस्य नश्यति सप्ताहादुद-
रः सर्वदेहजः ॥ १२ ॥

जो मनुष्य अजवायनको गुडके साथ भक्षण करे
और पथ्यसे रहे तो उसके सम्पूर्ण शरीरगत उदररोग
सात दिनमें नष्ट हो जाता है ॥ १२ ॥

सिद्धार्थकाद्युद्धर्तन ।

सिद्धार्थरजनीकल्कैः प्रपुत्राटतिलैः
सदा । कटुतैलेन संमिश्रमेतदुद्धर्तनं
परम् ॥ १३ ॥

सफेद सरसों, हलदी, पमाडके बीज और तिल
इन सबको एकत्र पीसकर कड़वे तेलमें मिलाकर
उबटन करनेसे शीतपित्तादिरोग नष्ट होते हैं ॥ १३ ॥

आर्द्रकस्वरसः पेयः पुराणगुडसंयु-
तः । शीतपित्तापहः श्रेष्ठो वह्निमा-
न्यविनाशनः ॥ १४ ॥

अदरखके स्वरसमें पुराना गुडमिलाकर सेवन कर-
नेसे शीतपित्तरोग नष्ट होता है और अग्नि दीपन होती
है ॥ १४ ॥

क्षीरस्विन्नानि काश्मर्याः फलान्य-
श्रन्हिताशनः । कृमिदङ्गुहराण्येव
शीतपित्ते प्रयोजयेत् ॥ १५ ॥

कुम्भेरके फलोंको दूधमें पकाकर सेवन करे और
हितकागक भोजन करे तो कृमि, दृष्ट और शीतपि-
त्तादि रोग नष्ट होते हैं ॥ १५ ॥

घृतं पीत्वा महातिक्तं शोणितं मो-
क्षयेत्तथा । स्निग्धस्विन्नस्य संशुद्धि-
मादौ कोठे समाचरेत् ॥ १६ ॥

शीतपित्तरोगमें महातिक्तनामक घृतको पीकर रक्त
मोक्षण करावे । कोठरोगमें प्रथम स्निग्ध और स्वेदित
करके संशोधन (वमन विरेचनादि) करावे ॥ १६ ॥

सर्वतः शुद्धदेहस्य कुष्ठघ्नीं कारये-
त्क्रियाम् । कुष्ठोक्ताश्च क्रियां कुर्या-
दम्लपित्तघ्नमेव च ॥ उदरौक्तां क्रि-
यां वापि कोठरोगे समासतः ॥ १७ ॥

जब वमन, विरेचनादिसे शरीर शुद्ध हो जाय तब
कुष्ठनाशक चिकित्सा करे । इस कोठरोगमें कुष्ठरो-
गोक्त आर अम्लपित्तनाशक चिकित्सा करे तथा उद-
ररोगोक्त भी चिकित्सा करनी चाहिए ॥ १७ ॥

निम्बस्य पत्राणि सदा घृतेन धात्री-
विमिश्राण्यथवोपयुञ्ज्यात् । विस्फो-
टकण्डूकृमिशीतपित्तमुदरकोठौ च
कफश्च हन्यात् ॥ १८ ॥

नीमके पत्तोंको घीमें चुपडकर और उनमें आमले
मिलाकर सेवन करनेसे विस्फोट, कण्डू, कृमि, शीत-
पित्त, उदर, कोठ और कफ नष्ट होता है ॥ १८ ॥

कुष्ठं हरिद्रासुरसा पटोलं निम्बाश्व-
गन्धा सुरदारुशिथु । ससर्षपं तुम्बु-
रुधान्यचव्यमिमानी चूर्णानि समा-
नि कुर्यात् ॥ १९ ॥ तत्तक्रपिष्टं प्र-
थमं शरीरं तैलाक्तमुद्धर्तयुतं यतेत ।
ततोऽस्य कंठपिटिकासशोषकुष्ठानि
शोथाश्च शमं ब्रजन्ति ॥ २० ॥

कूठ, हलदी, तुलसी, पटोलपात, नीमकी छाल,
असगन्ध, देवदारु, सिंहजना, सरसो, तुम्बुरु, धनि-
यां और चव्य ये सब औषधि समान भाग लेकर वा-
रीक पीसकर चूर्ण कर ले । इस चूर्णको तक्रमे पीस-
कर प्रथम शरीरमें तेलको मलकर फिर इसको मले
तो इससे कण्डू, पिटिका, शोष, कुष्ठ और शोथ ये
सब रोग नष्ट होते हैं ॥ १९ ॥ २० ॥

तैलस्योद्धर्तने योगे योज्यो राज्यादि-
को गणः ॥ २१ ॥

उबटन करनेके लिये जो तेल लेना चाहिये उसमें
राज्यादिगणकी औषधि मिलानी उचित है ॥ २१ ॥

इति श्रीवज्रसेने भाषाटीकायामुदररोगशीतपित्त-
कोठाधिकार समाप्त ॥ ५८ ॥

अथ अम्लपित्ताधिकार ।



विरुद्धदुष्टाम्लविदाहिपित्तप्रकोपिपानान्नभुजो विदग्धम् । पित्तं स्वहेतूपचितं पुरा यत्तदम्लपित्तं प्रवदन्ति सन्तः ॥ १ ॥

विरुद्ध (सयोगविरुद्ध दूध मछली इत्यादि) दुष्ट (विकृत भोजन), खट्टे, दाहकारक और पित्तको कुपित करनेवाले अन्नपानोंको सेवन करनेसे अम्लपाक को प्राप्त हुआ पित्त प्रथम वर्षादि ऋतुओमें अम्लपाकी जलोसे तथा ऐसे अन्यान्य पदार्थोंसे संचित हुआ पित्त कुपित होता है उसको प्राचीनवैद्य अम्लपित्तरोग कहने है ॥ १ ॥

अम्लपित्तके लक्षण ।

अविपाककृमोत्केशतित्ताम्लोद्धारगौरवैः । हृत्कण्ठदाहारुचिभिश्चाम्लपित्तं वदेद्बुधः ॥ २ ॥

अन्नका न पचना, ग्लानि, वमनकीसी इच्छाका होना, कडवी और खट्टी डकारोका आना, शरीरमें भारीपन, हृदय और कण्ठमें दाह होना तथा अन्नमें अरुचिका होना ये सब लक्षण जिसमें हो उसको अम्लपित्त कहते हैं ॥ २ ॥

प्रथम अधोगतअम्लपित्तके लक्षण ।

तृडदाहमूर्च्छाभ्रममोहकारि प्रयात्यथो वा विविधप्रकारम् । हृत्तासकोठानलसादहर्षस्वेदाङ्गपीतत्वकरं कदाचित् ॥ ३ ॥

ऊर्ध्वगत और अधोगत इन भेदोंसे अम्लपित्तरोग दो प्रकारका है । प्रथम अधोगत अम्लपित्तके लक्षण कहते हैं । अधोगतअम्लपित्तमें तृपा, दाह, मूर्च्छा, भ्रम, मोह, उबकाई, चक्रत्तोका पडना, मन्दाग्नि, रोमाचोका होना, पसीनेका आना और शरीरमें पीलापन ये सब लक्षण होते हैं और गुदाके मार्गसे अनेक रगके पित्त गिरते हैं ॥ ३ ॥

ऊर्ध्वगतअम्लपित्तके लक्षण ।

वातं हरितीतकनीलकृष्णमारक्त-
क्ताभमतीव चाम्लम् । मांसोदकाभं
त्वतिपिच्छिलाभं श्लेष्मानुजातं वि-
विधं रसेन ॥ ४ ॥

हरे, पोले, नीले, काले, किंचिन्लाल, अत्यंत खट्टे, मांसके धोवनके समान, अत्यंत पिच्छिल, कफसंयुक्त और सारे, तीखे तथा कडवे रसवाले ऐसे पित्तवमनमें गिरते हो तो ऊर्ध्वगत अम्लपित्त जानना ४॥

अम्लपित्तकी विशेष अवस्था ।

भुक्ते विदग्धेऽप्यथवाप्यभुक्ते करोति
तित्तान्त्वमिं कदाचित् । उद्धारमेवं-
विधमेव कण्ठहृत्कुक्षिदाहं शिरसो
रुजश्च ॥ ५ ॥ करचरणदाहमौष्ण्यं
महतीमरुचिं ज्वरश्च कफपित्तम् ।
जनयति कंडूमण्डलपिडिकाशतनि-
चित्तगात्ररोगचयम् ॥ ६ ॥

भोजन करनेपर जब अन्नका विदग्ध पाक होता है अथवा कदाचित् विना ही भोजन करनेपर कडवी और खट्टी वमन और डकार आती है, कण्ठमें, हृदयमें और कोखमें दाह होती है, शिरमें पीडा, हाथ और पाँवोंमें दाह, संताप होता है, भयकर अरुचि कफ और पित्तजनित ज्वर होता है, तथा खुजली, मण्डलाकार चकत्ते और फुंसियोंसे व्याप्त देहमें अन्नका विदग्धपाक तथा ग्लानि आदि रोगोंके समूह उत्पन्न होते हैं ५॥६॥

साध्यासाध्यता ।

रोगोऽयमम्लपित्ताख्यो यत्नात्संसा-
ध्यते नवः । चिरोत्थितो भवेद्याप्यः
कृच्छ्रसाध्यः स कस्यचित् ॥ ७ ॥

थोडे समयका उत्पन्न हुआ यह अम्लपित्तरोग साध्य और बहुत दिनोंका याग्य और मिथ्याहार विहार करनेवाले मनुष्यके कष्टसाध्य होता है ॥ ७ ॥

अम्लपित्तमें दोषोंका संसर्ग ।

सानिलं सानिलकफं सकफं तच्च ल-
क्षयेत् । दोषलिङ्गेन मतिमान्भिषङ्मो-
हकरं हि तत् ॥ ८ ॥

बुद्धिमान् वैद्य दोषोंके संसर्गसे जाने किं, यह अम्ल-
पित्त वातसंबंधी है अथवा वात और कफ दोनोंके
संसर्गवाला है या कफसंबंधी है । यह अवश्य खूब
विचार कर जानना चाहिये । क्योंकि यदि यह अम्ल-
पित्त ऊर्ध्वगतिसे हो तो वमनकी भ्रांति होती है
और अधोगतिसे हो तो अतीसार प्रतीत होता है ।
यहाँ वैद्यक भ्रम उत्पन्न होता है इसलिये अच्छे प्रका-
रसे बुद्धिको बल देकर निश्चय करे कि, जिसमे
किसी प्रकारका सदेह न रहे ॥ ८ ॥

दोषभेदोंसे लक्षणभेद ।

कम्पप्रलापमूर्च्छाचिमिचिमिगात्रा-
वसादशूलानि । तमसो दर्शनवि-
भ्रमहर्षणमोहाश्च वातयुते ॥ ९ ॥

वातज अम्लपित्तमे कम्प, वृथा वकवाद, मूर्च्छा,
सब शरीरमें चिमचिमाहट, ग्लानि, शूल, अंधकार-
दर्शन, विभ्रम, रोमांचोंका होना और मोह होता है ९

कफनिष्ठीवनगौरवजडतारुचिशीत
साद्वमिलेपाः । दहनबलसादकंडू-
निद्राचिह्नं कफानुगते ॥ १० ॥

कफज अम्लपित्तमे कफका थूकना, शरीरमे भारी-
पन, जडता, अरुचि, शीतका लगना, ग्लानि, वमन,
मुखमें और छातीमे कफ लिसासा रहे, जठराग्निके
बलका नाश, खुजली और निद्राका अधिक आना ये
सब लक्षण होते हैं ॥ १० ॥

उभयमिदमेव चिह्नं मारुतकफसंभवे
भवत्यम्ले ॥ ११ ॥

जो अम्लपित्त वात और कफ दोनोंसे उत्पन्न हुआ
हो तो उसमे उपरोक्त दोनों दोषोंके लक्षण होते
हैं ॥ ११ ॥

कफपित्तके लक्षण ।

तिक्ताम्लकटुकोद्गारवमिहत्कण्ठदाह-
कृत । तमो मूर्च्छारुचिशर्द्धिरालस्य-

श्च शिरोरुजा ॥ प्रसेको मुखमाधुर्य
श्लेष्मपित्तस्य लक्षणम् ॥ १२ ॥

कफपित्तज अम्लपित्तमे कडवी, खट्टी और चर-
परी डकारोका आना, वमन, हृदय और कण्ठमें
दाहका होना, अधकार दर्शन, मूर्च्छा, अरुचि, आल-
स्य, शिरमे पीडा, मुखसे लारका गिरना और मुखमें
मधुरता ये सब लक्षण होते हैं ॥ १२ ॥

अम्लपित्तकी चिकित्सा ।

अम्लपित्ते तु वमनं पटोलारिष्टवा-
सकैः । कारयेन्मदनक्षौद्रसिन्धुयुक्तं
ततो भिषक् ॥ १३ ॥

अम्लपित्तरोगमे पटोलपत्र, नीम, अड्डसा, मैतफल,
गहद और सैधानमक इनके द्वारा वमन करावे ॥ १३ ॥

विरेचनं त्रिवृच्चूर्णं मधुधात्रीफलद्रवैः १४

निसोतका चूर्ण, शहद और आमलोका रस इनके
द्वारा विरेचन करावे ॥ १४ ॥

सम्यग्वान्ताविरिक्तस्य सुस्निग्धस्या-
नुवासनम् । आस्थापनं चिरोद्भूते
देयं दोषाग्न्यपेक्षया ॥ १५ ॥

बहुत दिनोंके अम्लपित्तमे दोष और अग्निके बला-
बलका विचार कर प्रथम अच्छे प्रकारसे वमन और
विरेचनादिसे शुद्ध करके तथा सम्यक् प्रकारसे स्निग्ध
करके अनुवासन और आस्थापन बस्ति देवे ॥ १५ ॥

तिक्तभूयिष्ठमाहारं पानं वापि प्रयो-
जयेत् । यवगोधूमविकृतीस्तीक्ष्णसं-
स्कारवर्जिताः ॥ यथास्वं लाजशक्तू-
न्वा सितामधुयुतान्पिबेत् ॥ १६ ॥

अम्लपित्तरोगमें कडवी औषधियोंका रसमिश्रित
आहार और पानको व्यवहार करे । जो अथवा
गेहूँके वनाये हुए यूपदि पदार्थ और उनमे मिरचा-
दिक-तीक्ष्ण वस्तु न पडी हो ऐसे पदार्थ पान करने
चाहिये अथवा भक्षण करने चाहिये । तथा खीलोके
सत्तुओमे मिश्री और शहद मिला कर दोषोंको विचार
कर पिये ॥ १६ ॥

पूतीकरञ्जशुद्धानि घृतभृष्टानि रो-
गिणे । निवेद्य भोजने कार्यं वमनं
कोष्णवारिणा ॥ १७ ॥

दुर्गंधकरंजके अंकुरोको घीमे भून कर रोगीको
भोजनमे खानेके लिये देवे और गरम जलके द्वारा
वमन करावे ॥ १७ ॥

अलसं मूर्च्छितं तस्य सुखं निर्द्दीयते
यतः । अरोचकस्य वैरस्यव्रणकण्ठो-
पलेपनात् ॥ १८ ॥

जो अम्लपित्तरोगमे कफाधिक्यताके कारण आल-
स्य, मूर्च्छा, अरुचि, विरसता और व्रण हो तो कण्ठ-
पर कफनाशक औषधियोका लेप करनेसे कफका
ह्रास होकर सुख उत्पन्न होता है ॥ १८ ॥

द्व्यहादत्रैव वमनं प्रकुर्व्याद्योगवि-
त्ररः । धारयेत्कवलानिष्टान्पित्तहा-
नतिरोचकान् । भृष्टान्कलायानथवा
मसूरान्वा प्रकल्पयेत् ॥ १९ ॥

अम्लपित्तरोगमे दो दिनके पश्चात् योगको जानने-
वाला वैद्य वमन करावे । तथा इष्टकवल, पित्तनाशक,
और रुचिकारक पदार्थ, भूनी मटर, अथवा मसूर
इनको प्रयोग करे ॥ १९ ॥

ऊर्ध्वगं वमनेर्धोमात्रधोगं रेचनेर्हरेत् २०

ऊर्ध्वगत अम्लपित्तको वमनके द्वारा ओर अधो-
गत अम्लपित्तको विरेचनके द्वारा शमन करे ॥ २० ॥

वमने शोधने जाते यदि दोषो न
शाम्यति । तदा वै शिशिरा लेषा
असृक्स्त्रावश्च युक्तिः ॥ २१ ॥

जो अम्लपित्तरोगमे वमन और विरेचनके द्वारा
दोष शमन न हो तो शीतल प्रलेप और युक्तिपूर्वक
रक्तमाक्षण करावे ॥ २१ ॥

कम्पप्रलापमूर्च्छाङ्गिदाहृष्टान्नास्रपित्ति-
नः । वातप्रकोपं नृष्णाश्च रक्षञ्छो-
धनमाचरेत् ॥ २२ ॥

अम्लपित्तरोगमे जो कम्प, प्रलाप, मूर्च्छा, दाह,
तृषा, रक्तपित्त, वातका प्रकोप और तृषा हो तो
शोधन कर्म करे ॥ २२ ॥

चित्रकैरण्डमूलानि यवाश्च सयवा-
सकाः । जलेन कथितं शीतं कोष्ठ-
दाहरुजापहम् ॥ २३ ॥

चीता, अण्डकी जड़, जौ और जवासा इनका
काथ बनाकर पान करनेसे कोष्ठगत दाह दूर होता है २३

अभयापिप्पलीद्राक्षासिताधन्वयवा-
सकम् । मधुना कण्ठदाहघ्नमम्लपि-
त्तहरं परम् ॥ २४ ॥

हरड, पीपल, दाख, मिश्री और धमासा इनका
काथ बनाकर मिश्री डालकर पान करनेसे अम्लपि-
त्तरोग दूर होता है ॥ २४ ॥

निस्तुषयवधात्री च त्रिगन्धं कथितं
पिबेत् । क्षौद्रयुक्तं निहन्त्याशु छर्दिं
पित्ताम्लसम्भवाम् ॥ २५ ॥

तुषरहित जौ, आमले, दालचीनी, इलायची और
तेजपात इनके काथमे शहद डालकर पान करनेसे
अम्लपित्तकी वमन दूर होती है ॥ २५ ॥

छिन्नोद्भवा निम्बपटोलपत्रं फलत्रिकं
सुकथितं सुशीतम् । क्षौद्रान्वितं पि-
त्तमनेकरूपं सुदारुणं हन्ति तदम्ल-
पित्तम् ॥ २६ ॥

गिलोय, नीमकी छाल, पटोलपात और त्रिकला
इनका काथ बनाकर शीतल करके शहद डालकर
पान करनेसे अनेक प्रकारका दारुण पित्तरोग और
अम्लपित्तरोग दूर होता है ॥ २६ ॥

अमृतानागरमुस्तकिरातसमभागसा-
धितं तोयम् । दारुणं तदम्लपित्तं
जयत्यवश्यं नृणां सद्यः ॥ २७ ॥

गिलोय, सोठ, नागरमोथा और चिरायता इन
सबको समान लेकर काथ बनाकर पान करनेसे
अत्यंत दारुण अम्लपित्तरोग अवश्य दूर होता
है ॥ २७ ॥

पटोलशुण्ठीयवपिप्पलीनां काथं पि-
बेन्माक्षिकसंप्रयुक्तम् । तदम्लपित्तं
विनिहन्ति शूलमग्रेष्व वृद्धिं भुजयो-
र्बलञ्च ॥ २८ ॥

पटोलपत्र, सोठ, जौ और पीपल इनका काथ बना
कर शहद डालकर पान करनेसे अम्लपित्त और शूल
नष्ट होता है, अग्निकी वृद्धि होती है, और भुजाओंमें
बल उत्पन्न होता है ॥ २८ ॥

वासामृतापर्पटकनिम्बभूनिम्बमार्क-
वैः । त्रिफलाकुलकैः काथः सक्षौ-
द्रश्चाम्लपित्तहा ॥ २९ ॥

अड्डसा, गिलोय, पित्तपापडा, नीम, चिरायता,
भोंगरा, त्रिफला और वेर इनके काथमें शहद डाल-
कर पान करनेसे अम्लपित्तरोग नष्ट होता है ॥ २९ ॥

हिंगु च कतकफलानि चिश्वात्वचो
घृतश्च पुटदग्धम् । शमयति तदम्ल
पित्तमम्लभुजो यथोत्तरं द्विगुणम् ॥ ३० ॥

हींग, निर्मलीके फल, इमलीकी छाल और घृत
ये प्रत्येक औषधि एकसे एक दुगुनी लेकर पुटपाककी
विधिसे दग्धकर सेवन करनेसे खटाई खानेवालेका
भी अम्लपित्तरोग नष्ट होता है ॥ ३० ॥

एलापटोलधनचन्दनधान्यधात्रीवां-
शीवरांगदलनागकणाभयाभिः ।
लेहः सिताज्यमधुभिः सितया च
पिण्डी सम्यक् कृता शुभदिनेन सु-
मन्त्रपूता ॥ ३१ ॥ हन्त्यम्लपित्तव-
मनारुचिदाहमोहखालित्यमेहतिमि-
रत्रणशुक्रदोषान् । भुक्त्वा नरः सत-
तमात्रलकीरसेन वृद्धोऽप्यनेन सुभ-
वेत्तरुणोरिरंसुः ॥ ३२ ॥

इलायची, पटोलपत्र, नागरमोथा, चन्दन, धनिया,
आमले, वंशलोचन, दालचीनी, तेजपात, नागकेशर,
पीपल आरं हंड इन सबको समानभाग लेकर कूट
पीसकर चूर्ण कर ले, फिर इस चूर्णको मिश्री, घी और
शहदमें मिलाकर दन्त्र पढ कर उत्तम दिनमें पिण्डी

बनावे। इसको आमलोके रसके साथ नित्य सेवन कर-
नेसे अम्लपित्त, वमन, अरुचि, दाह, मोह, खालित्य,
प्रमेह, तिमिर, त्रण आरं शुक्रदोष ये सब विकार नष्ट
हो जाते हैं। इसके प्रभावसे वृद्ध मनुष्य भी तरुणके
समान होजाता है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

यवकृष्णपटोलानां काथं क्षौद्रयुतं
पिबेत् । नाशयेदम्लपित्तञ्च ह्यरुचि-
ञ्च वमिन्तथा ॥ ३३ ॥

जौ, पीपल और पटोलपत्र इनके काथमें शहद
डालकर पान करनेसे अम्लपित्त, अरुचि और वमन
दूर होती है ॥ ३३ ॥

वासानिम्बपटोलत्रिफलासनयासयो-
जितो जयति । अधिककफमम्लपित्तं
प्रयोजितो गुग्गुलुः क्रमशः ॥ ३४ ॥

अड्डसा, नीमकी छाल, पटोलपत्र, त्रिफला, दि-
जयसार और जवासा इनको समान भाग लेकर
गूगल मिलाकर सेवन करनेसे अधिक कफ आरं
अम्लपित्तरोग नष्ट होता है ॥ ३४ ॥

त्रिकटकसुकण्टकारीपर्पटकारिष्टकुट-
जबीजानाम् । सौराष्ट्रिकापटोलत्रा-
यन्तीदारुमूर्वाणाम् ॥ ३५ ॥ तित्ता-
मृणालमलयजकलिङ्गकैलाकिरातति-
क्तानाम् । सवचातिविषाकेशर-
दीप्यकमधुशिशुबीजानाम् ॥ ३६ ॥
चूर्णं पटवृष्टमिदं पीतं शिशिरेण वा-
रिणा प्रातः । लीढं क्षौद्रेण चाम्ल-
पित्तं प्रायेणाधोगतं हन्ति ॥ ३७ ॥

त्रिकुटा, कटेरी, पित्तपापडा, नीमकी छाल, इन्द्र-
जौ, सोरठकी मिट्टी, पटोलपत्र, त्रायमाण, देवदारु,
मूर्वा, कुटकी, कमलकी नाल, चन्दन, कुडकी छाल,
इलायची, चिरायता, वच, अतीस, नागकेशर, अज-
वायन और लाल साहिजनेके बीज इन सबको
समान भाग लेकर गिलापर वारिक चूर्ण पीसकर
प्रातःकाल शीतल जलके साथ पान करनेसे अथवा
शहदमें मिलाकर चाटनेसे अधोगत अम्लपित्तरोग
नष्ट होता है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

अधोगतेऽम्लपित्ते तु पैत्तिकीं ग्रहणी-
विधिम् । पाचनीं दीपनीञ्चैव वीक्ष्या-
वीक्ष्यावचारयेत् ॥ ३८ ॥

अधोगत अम्लपित्तरोगमें पित्तजग्रहणीके समान
चिकित्सा करे तथा रोगीका बलाबल विचार कर
पाचन और दीपन औषधि देवे ॥ ३८ ॥

ज्वलन्तमिव चात्मानं मन्यते योऽम्ल-
पित्तवान् । तस्य संशोधनं पथ्यं न
शान्तिः शोधनं विना ॥ ३९ ॥

जिस अम्लपित्तरोगीका शरीर अग्निके समान
जले अर्थात् घोर दाह हो तो उसको संशोधन कराना
अत्यन्त पथ्य है, व शोधि विना संशोधनके शान्ति
नहीं हो सकती ॥ ३९ ॥

अचिरोत्थे चिरोत्थे वा वमनं तत्र
कारयेत् ॥

अम्लपित्त रोग चाहे पुराना हो अथवा नवान हो
किंतु वमन सबमे करानी चाहिए ।

सवाते सखिबन्धेऽस्मिन्निहता कंसह-
रीतकी ॥ ४० ॥

अम्लपित्तरोगमे जो वातका विबन्ध हो तो कंस
हरितकीका सेवन करे ॥ ४० ॥

क्षीरं तथा गुडञ्चैव सर्पिल्लहोऽथवा
पुनः । अम्लपित्ते प्रयोक्तव्यः कफपि-
त्तहरो विधिः ॥ ४१ ॥

अम्लपित्तरोगमे गुड, घृत और अवलेह ये सब
प्रयोग करने चाहिये तथा कफपित्तनाशक विधि
करनी चाहिये ॥ ४१ ॥

गुडकूष्माण्डकं चैव तथा खण्डाम-
लक्यपि । गुडक्षीरकणासिद्धं सर्पि-
रत्रापि योजयेत् ॥ ४२ ॥

कूष्माण्डगुड तथा आमलकी खण्ड एवं गुड, दूध
और पीपलके द्वारा सिद्ध किया हुआ घृत भी इसमे
प्रयोग करना चाहिये ॥ ४२ ॥

रक्तपित्तेऽपि यच्चोक्तं यच्छूले चापि
पैत्तिके । तत्सर्वं कारयेद्धीमान-
म्लपित्ते विशेषतः ॥ ४३ ॥

रक्तपित्तरोगमे और पैत्तिकशूलमें जो चिकित्सा
कही है वह सब अम्लपित्तरोगमे भी विशेष करके
करनी चाहिये ॥ ४३ ॥

पिप्पलीवृत ।

पिप्पलीकाथकल्कानां घृतं सिद्धं म-
धुप्लुतम् । पिबेत्प्रातः समुत्थाय ह्य-
म्लपित्तनिवृत्तये ॥ ४४ ॥

पीपलके काथ ओर कल्कके द्वारा घृतको पका-
कर उसमे शहद मिलाकर प्रातःकाल पान करनेसे
अम्लपित्तरोग नष्ट होता है ॥ ४४ ॥

शतावरोघृत ।

शतावरीमूलकल्कं घृतप्रस्थं पयः
समम् । पचेन्मृद्धिना सम्यक् क्षीरं
दत्त्वा चतुर्गुणम् ॥ ४५ ॥ नाशयेद्-
म्लपित्तञ्च वातपित्तोत्थितं ध्रुवम् ।
रक्तपित्तं तृषां मूर्च्छां श्वासं सन्ताप-
मेव च ॥ ४६ ॥

शतावरकी जडका स्वरस ४ प्रस्थ, दूध ४ प्रस्थ
और उत्तम गायक, वी १ प्रस्थ इन सबको एकत्र
मिलाकर यथाविधिसे घृतको पकावे । इस घृतको
सेवन करनेसे-वातपित्तजनित अम्लपित्त, रक्तपित्त,
तृषा, मूर्च्छा, श्वास और सन्ताप ये सब रोग नष्ट होते
हैं ॥ ४५ ॥ ४६ ॥

तिक्तकं षट्पलं सर्पिः पञ्चतिक्तमथापि
वा ॥ गुग्गुलुतिक्तकं वापि ह्यम्ल-
पित्ते प्रयोजयेत् ॥ ४७ ॥

अम्लपित्तरोगमे तिक्तकघृत, षट्पलघृत, पंचतिक्त
घृत अथवा गुग्गुलुतिक्तकघृत इन सबको प्रयोग
करना चाहिये ॥ ४७ ॥

धात्रीशतावरीक्षांद्रं तुल्यं शर्करया
समम् । लिहेदत्रानुपानेन पयसाथ

घृतेन च ॥४८॥ अम्लपित्तं निहन्त्याशु
वलीपलितनाशनम् । चक्षुष्यमायु-
ष्यतमं चतुःसममुदाहृतम् ॥ ४९ ॥

आमले, गतावर, शहद और मिश्री यह सब
समान भाग लेवे, सबको एकत्र मिलाकर दूधके
साथ और घृतके साथ सेवन करे । इससे अम्लपित्त,
वलीपलितरोग और अम्लपित्त सम्बन्धी सब उपद्रव
नष्ट हो जाते हैं । यह नेत्रोंकी ज्योतिको बढ़ावे
और अवस्थाको स्थापन करता है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥

रसामृतचूर्ण ।

त्रिकुटत्रिफलामुस्तं विडङ्गं चित्रकं
तथा । एषां संचूर्णितानान्तु प्रत्येक-
न्तु पलं भवेत् ॥ ५० ॥ कर्षद्वयं ग-
न्धकस्य तदर्थं पारदस्य च । विडा-
लपदमात्रं तु लिह्यात् तन्मधुसर्पि-
षा ॥ ५१ ॥ शीतोदकं चातुपिवेत्क्र-
माद्भव्यं पयस्तथा । अम्लपित्तमग्नि-
मान्द्यं परिणामरुजं तथा ॥ का-
मलां पांडुरोगश्च हन्यादेतद्रसामृ-
तम् ॥ ५२ ॥

त्रिकुटा, त्रिफला, नागरमोथा, वायविडंग और चीता
यह प्रत्येक औषधि चार चार तोले, गन्धक २ तोले,
पारा १ तोला इन सबको एकत्र पीसकर एक तोले
शहद और घीमे मिलाकर सेवन करे और शीतल
जलका अनुपान करे अथवा क्रमसे गायका दूध पीवे।
यह औषधि-अम्लपित्त, मन्दाग्नि, परिणामशूल, काम-
ला और पाण्डुरोग इन सबको दूर करती है ॥ ५० ॥
॥ ५१ ॥ ५२ ॥

नारिकेलखण्ड ।

कुडवं नारिकेरस्य जले मृद्वग्निना प-
चेत् । नारिकेरजलाभावे गव्ये पयसि
तत्पिबेत् ॥ ५३ ॥ धान्यकं पिप्पली मुस्तं
चातुर्जातं विचूर्णितम् । प्रत्येकं टङ्क-
मात्रन्तु शीते तस्मिन्विनिःक्षिपेत्
४२

॥ ५४ ॥ पलमात्रस्तद्वर्जोऽपि भक्षिभः
प्रत्यहं नरैः । नारिकेलखण्डोऽयं
पुंस्त्वनिद्राबलप्रदः ॥ ५५ ॥ अम्ल-
पित्तं रक्तपित्तं शूलश्च परिणामजम् ।
क्षयं क्षपयति क्षिप्रं शुष्कं दावानलो
यथा ॥ ५६ ॥

नारियलकी गिरी एक कुडव परिमाण लेकर नारि-
यलके जलमे पकावे और जो नारियलका जल नहीं
मिले तो गायके दूधमे पकावे, जब पकते पकते
गाढा हो जाय तत्र धनियाँ, पीपल, नागरमोथा, दाल-
चीनी, इलायची, तेजपात और नागकेशर इन
प्रत्येकका चूर्ण एक एक टंक शीतल होनेपर मिला
देवे । प्रतिदिन इसमेंसे चार तोले अथवा दो तोले
भक्षण करे । यह नारिकेलखण्ड-पुरुषत्व, निद्रा
और बलको उत्पन्न करता है । तथा अम्लपित्त, रक्त-
पित्त, परिणामशूल और राजयक्ष्मारोगको नष्ट
करता है । जिस प्रकार शुष्कवनको दावानल दग्ध
कर देता है ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥

बृहन्नारिकेलखण्ड ।

प्रस्थन्तु नारिकेलस्य सूक्ष्मं दृषादि पे-
षितम् । निष्कुलीकृतकूष्माण्डखण्डा-
नामर्द्धमाढकम् ॥ ५७ ॥ तद्वयं भर्ज-
येद्रव्ये घृते तु कुडवोन्मिते । तत-
स्तत्र क्षिपेच्छुद्धं गोदुग्धं चाढकोन्मि-
तम् ॥ ५८ ॥ तत्रैव निक्षिपेद्रव्यां
सितां प्रस्थद्वयोन्मिताम् । पचेत्सर्वा-
णि चैकत्र मृदुना वह्निना भिषक् ॥
॥ ५९ ॥ सुपके शीतले तत्र चूर्णाकृ-
त्य विनिःक्षिपेत् । सूक्ष्मैला धान्यकं
धात्री पर्यटं जलदं जलम् ॥ ६० ॥
उशीरं चन्दनं द्राक्षां शृङ्गाटं च कसे-
रुकम् । त्वक्पत्रकलुकपूरं कर्षयुगलं
पृथक् पृथक् ॥ ६१ ॥ सर्वं संमिश्र-
येद्रक्षेद्राजने मुन्मये नत्रे । पलमात्र-
मिदं प्रातर्भक्षयेद्वा यथानलम् ॥ ६२ ॥

एतन्निषेधितं हन्ति रोगानेतात्र सं-
शयः । अम्लपित्तं ज्वरं पित्तं रक्तपि-
त्तमरोचकम् ॥ ६३ ॥ वातरक्तं तृषां
दाहं पाण्डुरोगं च कामलाम् । क्षयं
क्षपयति क्षिप्रं शूलञ्च परिणामजम् ॥
॥ ६४ ॥ नारिकेलस्य खण्डोऽयमश्वि-
भ्यां भाषितः पुरा । वर्णदो बृंहणो
वृष्यः पुंस्त्वनिद्राबलप्रदः ॥ ६५ ॥

नारियलकी गिरी एक प्रस्थ लेकर घारीक पीस
लेवे, फिर छिलकेरहित पेंठके टुकड़े आधे आठक परि-
माण लेवे, दोनोंको एक कुडव परिमाण गायके घृतमें
भून लेवे । फिर इनको एक आठक परिमाण उत्तम
गायके शुद्ध दूधमें पकावे और इसमें २ प्रस्थ सफेद
मिश्री डालकर मन्द मन्द अग्निसे पकावे । जब पक-
कर अच्छे प्रकारसे सिद्ध होजाय तब शीतल होनेपर
छोटी इलायची, धनियाँ, आमले, पित्तपापडा, नागर-
मोथा, सुगन्धवाला, खस, चन्दन, दाख, सिंघाडे,
कशेरू, दालचीनी, तेजपात और कपूर ये प्रत्येक
औपधि दो दो तोले लेकर चूर्ण करके मिला देवे। इसको
एक उत्तम मिट्टीके नवीन वासनमें करके रख देवे ।
प्रतिदिन प्रातःकाल इसमेंसे चार तोले परिमाण अग्नि-
के बलानुसार भक्षण करे । इसको सेवन करनेसे अम्ल-
पित्त, ज्वरपित्त, रक्तपित्त, अरुचि, वातरक्त, तृषा,
दाह, पाण्डुरोग, कामला, क्षय और परिणामशूल
इत्यादि अनेक रोग नष्ट होते हैं। यह नारिकेलखण्ड
पूर्वकालमें अश्विनीकुमारोने कहा है । यह वर्णको
सुन्दर करनेवाला, पुष्टिकारक, वीर्यजनक तथा पुरु-
पत्र, निद्रा और बलको देनेवाला है ॥ ५७--६५ ॥

नारिकेलाभृत ।

नारिकेलफलप्रस्थं पिष्टं घृतविभिर्जि-
तम् । प्रस्थं प्रस्थं समादाय शुण्ठ्या-
श्चूर्णस्य तद्युतम् ॥ ६६ ॥ द्विपात्रं
नारिकेलाब्धु तत्समं क्षीरमेव च ।
धात्र्याश्च रवरसप्रस्थं खण्डस्यापि
तुलां न्यसेत् ॥ ६७ ॥ एकीकृत्य पचे-
त्सर्वं शनैर्मृद्भिना भिषक् । सिद्ध-

शीते प्रदातव्यं चूर्णं तत्र सुकण्डितम्
॥ ६८ ॥ त्रिकटुः सचतुर्जातः प्रत्येकं
तु पलोन्मितम् । धात्रीजरिकयुग्मश्च
धान्यकं ग्रन्थिपर्णकम् ॥ ६९ ॥ तुगा-
पयोदचूर्णानि त्रिकर्षश्च पृथक् पृथक् ।
मधुनः पलानि चत्वारि स्निग्धे भा-
ण्डे निधापयेत् ॥ ७० ॥ कर्षप्रमाणं
कर्तव्यं रसं यूषं पिवेदतु । अम्लपित्तं
निहन्त्याशु शूलं चैव सुदुस्तरम् ७१
परिणामभवं शूलं पृष्ठशूलं च नाश-
येत् । अन्नोपरि भवं शूलं हृच्छूलं च
सुदुस्तरम् ॥ ७२ ॥ सर्वशूलहरं श्रेष्ठं
वायोर्वेगं यथा गिरिः । कण्ठदाहं च
हृदाहं छर्दि तृष्णां सुदारुणाम् ॥ ७३ ॥
कासं पञ्चविधं चैव रक्तपित्तं सुदारु-
णम् । पीनसश्च प्रतिश्यायं यक्ष्माणं
विनिहन्ति च ॥ ७४ ॥ परं वाजी-
करं श्रेष्ठं बलपुष्टिविवर्द्धनम् । अग्नि-
सन्दीपनकरं रसायनमिदं शुभम् ७५
मूत्ररोगेषु सर्वेषु वातरोगेषु शस्यते ।
शुद्धानि च सर्वाणि तांस्तान्नोगा-
न्निहन्ति च ॥ ७६ ॥ रोगानीकवि-
नाशाय लोकालुग्रहेहेतुना । अश्वि-
भ्यां निर्मितं श्रेष्ठममृताख्यं रसाय-
नम् ॥ ७७ ॥

नारियलकी गिरी १ प्रस्थ लेकर घीमें भूनलेवे,
और घीमें भूना हुआ सोठका चूर्ण १ प्रस्थ, दो कुम्भ
परिमाण नारियलका जल और दो कुम्भपरिमाण
दूध तथा आमलोका स्वरस १ प्रस्थ और उत्तम
खांडं १ तुला परिमाण इन सबको एकत्र मिलाकर
यथाविधिसे मन्द मन्द अग्निसे पकावे । जब पककर
तयार होजाय तब शीतल होनेपर सोठ, मिरच, पीपल,
दालचीनी, इलायची, तेजपात और नागकेजर प्रत्येक-
का चूर्ण चार २ तोले, आमले, जीरा, कालाजीरा,
धनियाँ, गठिवन, वशलोचन और नागरमोथा इन
प्रत्येकका चूर्ण ३--३ तोले, शहद १६ तोले इन सबको

मिलाकर एक चिकने वासनमे भरकर रख देवे। इसमेंसे एक तोला लेकर सेवन करे और इसपर मांसरस अथवा घृषका अनुपान करे। यह औषधि-अम्लपित्त, दुस्तरशूल, परिणामशूल, पृष्ठशूल, अन्नद्रवशूल, दुस्तर हृदयगूल, सर्व प्रकारके शूल, कण्ठदाह, हृदयकी दाह, वमन, वारुणतृषा, पाँचो प्रकारकी खोंसी, दाह-ण रक्तपित्त, पीनस, प्रतिश्याय, राजयक्ष्मा और सर्व प्रकारके रोगोको दूर करती है। तथा अत्यन्त वाजीकरण, श्रेष्ठ, बल और पुष्टिको बढ़ानेवाली अग्निको दीपन करनेवाली और उत्तम रसायन है। यह सब प्रकारके मूत्ररोगोको, सब प्रकारके वातरोगोंका, सब प्रकारके गुदाके रोग और अन्यान्य अनेक प्रकारके दुस्तर रोगोको विनाश करती है। रोगोको नष्ट करनेके लिये सप्तरके जीवोपर अनुग्रह वरके पूर्वकालमे अश्विनीकुमारोने इस अमृत रसायनको बनाया था ॥ ६६-७७ ॥

अविपत्यकरचूर्ण ।

त्रिकटुत्रिफलामुस्तं बीजं चैव विडङ्गजम् । एलापत्रं च सर्वाणि सप्तभागानि कारयेत् ॥ ७८ ॥ यावन्त्येतानि सर्वाणि लवङ्गं तत्सप्तं भवेत् । सर्वचूर्णाद्विगुणितं त्रिवृच्चूर्णं च कारयेत् ॥ ७९ ॥ यावन्त्येतानि सर्वाणि तावती शर्करा भवेत् । सर्वमेकीकृतं पात्रे स्निग्धे चैव निधापयेत् ॥ ८० ॥ भोजनादौ ततो भक्षेन्माषाष्टकमिदं शुभम् । शीततोयानुपानञ्च नारिकेलोदकं तथा ॥ ८१ ॥ ततो यथेष्टमाहारं कुर्यात्क्षीरोदनञ्च वै । अम्लपित्तं हरत्याशु शूलदुर्नामनाशनम् ॥ ८२ ॥ प्रमेहं विंशतित्रैव सूत्राघातं तथाश्मरीम् । अविपत्यकरं चूर्णमगस्तिसुनिभापितम् ॥ ८३ ॥

त्रिकुटा, त्रिफला, नागरमोथा, वायविडंगके बीज, इलायची और तेजपात यह सब औषधि समान भाग लेवे और सबकी बराबर लौंग लेवे, सबको एकत्र पीसकर चूर्ण कर ले और सब चूर्णसे दुगुना निसोतका

चूर्ण लेवे और सबके बराबर मिश्री लेवे। इन सबको एकत्र करके एक उत्तम चिकने पात्रमे करके रख देवे। प्रतिदिन इससेसे भोजनसे पहिले आठमासे भक्षण करे और इसपर शीतल जल अथवा नारियलके जलका अनुपान करे । इसपर यथेष्ट आहार करे अथवा दूधके साथ भात खाये। यह चूर्ण-अम्लपित्त, शूल, वत्रासीर, बीस प्रकारके प्रमेह, सूत्राघात और अश्मरी इन सबको नष्ट करता है। इस अविपत्यकर चूर्णको अगरित मुनिने कहा है ७८-८३ ॥

पिप्पलाद्यवलेह ।

पिप्पल्याः कुडवं चूर्णं घृतस्य कुडवद्वयम् । पलं षोडशकं खण्डाच्छतावय्याः पलाष्टकम् ॥ ८४ ॥ शिवायाः स्वरसस्यापि पलं षोडशकं मतम् । क्षीरप्रस्थद्वये साध्ये लेहीभूतेऽत्र निःक्षिपेत् ॥ ८५ ॥ त्रिजातकाभयाजाजीधान्यमुस्तशिवातुगाः । एतेषां कार्षिकं चूर्णं कर्षार्द्धं कृष्णजीरकम् ॥ ८६ ॥ नागरं नागकं जातीफलं समरिचं हिमम् । दन्त्रा पलत्रयं क्षौद्रं स्निग्धभाण्डे विनिःक्षिपेत् ॥ ८७ ॥ प्रातर्यथाबलं लिह्यादम्लपित्तप्रशान्तये । हल्लासारोचकच्छार्दीपिपासादाहनाशनम् ॥ ८८ ॥

पीपलका चूर्ण १ कुडवपरिमाण, घी २ कुडव परिमाण, खाड १६ पल, शतावर ८ पल, हरडका स्वरस या काथ १६ पल और दूध २ प्रस्थ लेवे सबको एकत्र मिलाकर पकावे। जब पकते २ लेहके समान होजाय तब दालचीनी, इलायची, तेजपात, हरड, जीरा, धनिया, नागरमोथ, आमले और वशलोचन प्रत्येक ओषधिका चूर्ण एक २ तोला परिमाण, कालाजीरा ६ मासे, सोठ, नागकेशर, जायफल, कालीमिरच और कपूर यह प्रत्येक छ' छ. मासे और शहद १२ तोले इन सबको एकत्र मिला देवे, पश्चात् एक उत्तम चिकने वासनमे भरकर रख देवे इससेसे प्रतिदिन प्रातःकाल अग्निके बलानुसार चाटै इससे अम्लपित्त, हृदयास, (उबकाई) अहाचि, वमन, पियास और दाह नष्ट होती है ॥ ८४-८८ ॥

खण्डकूप्माण्ड ।

कूप्माण्डकरसो ग्राह्यः पलानां शत-
मात्रकम् । रसतुल्यं गवां क्षीरं धात्री-
चूर्णं पलाष्टकम् ॥ ८९ ॥ लघ्वग्निना
पचेत्तावद्यावद्भवति पिण्डितम् । धा-
त्रीतुल्या सिता योज्या पलाद्धं लेह-
येदनु । खण्डकूप्माण्डकं ख्यातमम्लपित्तं
नियच्छति ॥ ९० ॥

पंठेका स्वरस १०० पल, गायका दूध १०० पल
और आमलोका चूर्ण ३२ तोले, सबको एकत्र मि-
लाकर मन्द २ आगिसे पकावे । जब पकते २ पिण्डके
समान होजाय तब ३२ तोले उत्तम खांड डाल देवे ।
इसमेंसे प्रतिदिन दो तोले प्रमाण खाय । यह खण्ड-
कूप्माण्ड--अम्लपित्तरोगको नष्ट करता है ॥ ८९ ॥ ९० ॥

द्राक्षाद्यवृत ।

द्राक्षामृताशक्रपटोलपत्रैः सोशीर-
धात्रीवनचन्दनैश्च । त्रायन्तिकाप-
द्मकिरातधान्यैः कल्कैः पचेत्सर्पिर्हृषे-
तमेभिः ॥ ९१ ॥ युञ्जीत मात्रां सह
भोजनेन सर्वक्षुपानेऽपि भिषग्विद-
ध्यात् । बलासपित्तं ग्रहणीं प्रवृद्धां
कासाग्निसादं ज्वरमम्लपित्तम् । सर्व
निहन्त्याद्रघृतमेतदाशु सम्यक् प्रयुक्तं
ह्यमृतोपमञ्च ॥ ९२ ॥

दाख, गिलोय, कुडेकी छाल, पटोलपत्र, खस, आ-
मले, नागरमोथा, चन्दन, त्रायमाण, कमल, चिरा-
यता और धनियाँ इन सब औषधियोंके कल्कके
द्वारा उत्तम गायके धीको पकावे इसको बलानुसार
भोजनके साथ प्रत्येक ऋतुमें सेवन करे । यह औषधि
कफपित्त, अत्यन्त बढी हुई संग्रहणी, खोंसी, मन्दाग्नि,
ज्वर और अम्लपित्तको नष्ट करती है ॥ ९१ ॥ ९२ ॥

द्राक्षादिगुटिका ।

द्राक्षापथ्ये समे कृत्वा तयोस्तुल्यां
सितां क्षिपेत् । संकुट्याक्षद्वयमितं
पिण्डिकां कारयेद्विपक ॥ ९३ ॥ तां

खादेदम्लपित्तात्तौ हृत्कण्ठदहनाप-
हाम् । तृणमूर्च्छाभ्रममन्दाग्निनाशि-
नीं चामवातहाम् ॥ ९४ ॥

दाख और हरड दोनो समान भाग लेवे और
दोनोकी बराबर मिश्री लेवे, सबको कूट पीसकर दो दो
तोलेकी गोली बनावे । प्रतिदिन एक गोली खाय ।
इससे अम्लपित्तरोग, हृदयकी और कण्ठकी दाह,
तृषा, मूर्च्छा, भ्रम, मन्दाग्नि और आमवात यह सब
नष्ट होते है ॥ ९३ ॥ ९४ ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां अम्लपि-
त्ताधिकार समाप्त ॥ ५९ ॥

अथ विसर्परोगाधिकार ।

लवणाम्लकटूष्णादिसंसेवादोषकोप-
तः । विसर्पः सप्तधा ज्ञेयः सर्वतः
परिसर्पणात् ॥ १ ॥

लवण (नमकीन खारे), अम्ल (खट्टे), चरपरे
और गरम आदि पदार्थोंको सेवन करनेसे वातादि-
दोष कुपित होकर सात प्रकारके विसर्परोगको उत्पन्न
करते है । यह सर्वत्र फैल जाता है इस कारण
इसको विसर्प कहते है ॥ १ ॥

विसर्पके सातप्रकार ।

पृथक् त्रयस्त्रिभिश्चैको विसर्पा द्वन्द्व-
जास्त्रयः । वातिकः पैत्तिकश्चैव क-
फजः सान्निपातिकः । चत्वार एते
वीसर्पा वक्ष्यन्ते द्वन्द्वजास्त्रयः ॥ २ ॥

वातज, पित्तज, कफज और सान्निपातिक इस
प्रकार तीन दोषसम्बन्धी चार और दो दोषोंसे
उत्पन्न हुए तीन इस प्रकार विसर्प सात प्रकारका
जानना ॥ २ ॥

आग्नेयो वातपित्ताभ्यां ग्रन्थ्याख्यः
कफधातजः । यस्तु कर्दमको घोरः
स पित्तकफसम्भवः ॥ ३ ॥

वातपित्तसे आग्नेय विसर्प होता है, कफवातसे पृथिवीविसर्प होता है और पित्तकफसे घोर कर्दमक विसर्प होता है ॥ ३ ॥

विसर्पके दोषदूष्य ।

रक्तं लसीकात्वङ्मांसं दूष्यं दोषास्त्रयो मलाः । विसर्पाणां समुत्पत्तौ विज्ञेयाः सप्तधातवः ॥ ४ ॥

रुधिर, लसीका, त्वचा और मांस यह चार दूष्य और वातादि तीनों दोष इस प्रकार ये सप्त धातु विसर्प होनेके कारण हैं ॥ ४ ॥

वातजविसर्पके लक्षण ।

तत्र वातात्सर्पसर्पो वातज्वरसमव्यथः । शोफस्फुरणनिस्तोदभेदायामार्त्तिहर्षवान् ॥ ५ ॥

वातजविसर्पके लक्षण वातज्वरके समान होते हैं तथा सूजन, फडकने नोचने सरीखी पीडा, तोडने सरीखी पीडा, खँचने सरीखी पीडा, दुःख होना और रोमांचोका होना ये सब लक्षण होते हैं ॥ ५ ॥

पित्तजविसर्पके लक्षण ।

ापत्ताद्द्रुतगतिः पित्तज्वरलिङ्गोऽति-लोहितः ।

पित्तजविसर्प बहुत शीघ्र फैलता है, इसमें पित्तज्वरके लक्षण होते हैं और यह अत्यन्त लाल होता है।

कफजविसर्पके लक्षण ।

कफात्कंडूयुतः स्निग्धः कफज्वरसमानरुक् ॥ ६ ॥

कफजविसर्प अत्यन्त खुजलायुक्त, चिकना और इसमें कफज्वरके समान पीडा होती है ॥ ६ ॥

सन्निपातजविसर्पके लक्षण ।

सन्निपातसमुत्थश्च सर्वरूपसमन्वितः ७

सन्निपातजविसर्पमें उपर्युक्त तीनों दोषोंके सब लक्षण होते हैं ॥ ७ ॥

वातपित्तोत्पन्न आग्नेयविसर्पके लक्षण ।

वातपित्तज्वरच्छर्दिमूर्च्छातीसारतृड्भ्रमैः । अस्थिभेदाग्निसदनतमकारोचकैर्युतः ॥ ८ ॥ करोति सर्वदेहश्च दीप्ताङ्गारावकीर्णवत् । यं यं देशं विसर्पश्च विसर्पति भवेत्तु सः ॥ ९ ॥

शान्ताङ्गारासितोऽनीलो रक्तो वाऽऽश्वपचीयते । अग्निदग्ध इव स्फोटः शीघ्रं गत्वा द्रुतं स च ॥ १० ॥ मर्मानुसारी वीसर्पः स्यात्ततोऽतिबलस्ततः ।

व्यथेतांगं हरेत्संज्ञां निद्राश्च श्वासमीरयेत् ॥ ११ ॥ हिध्माश्च स गतोऽवस्थामीदृशीं लभते नरः । क्वचिच्छर्मारतिग्रस्तो भूमिशय्यासनादिषु ॥ १२ ॥ चेष्टमानस्ततः क्लिष्टो मनोदेहसमुद्भवः । दुष्प्रबोधोऽशुनते निद्रां सोऽग्निवीसर्प उच्यते ॥ १३ ॥

वातपित्तज विसर्पमें ज्वर, वमन, मूर्च्छा, अतिसार

तृषा, भ्रम, हड्डियोंमें तोडने सरीखी पीडा, संदाग्नि, अन्धकारदर्शन, अरुचि, सम्पूर्ण शरीर प्रज्वलित अंगारोंसे आच्छादितके समान प्रतीत हो, जिस जिस स्थानमें यह विसर्प फैलता है उसी उसी स्थानमें बुझे हुए अंगारोंके समान काला, नीला और लालरंगका होकर बहुत जल्दी सूजजाता है

अग्निसे जलेके समान ऊपर फफोले पडे वह विसर्प शीघ्र फैलनेके कारण मर्मांगे प्राप्त होकर अत्यन्त प्रबल होजाता है, प्रबलतासे शरीरको पीडित करता है, संज्ञा और निद्रा जाती रहती है, श्वास अधिक बढ़ जाता है, हिचकी आने लगती है, ऐसी अवस्थाको प्राप्त होकर वह मनुष्य रोगसे दुःखित हुआ पृथिवीमें कहीं भी आसन शयनादिकोमें सुख नहीं पाता अर्थात् सदैव सबकालमें सब जगह बेचैन रहता है तब उस क्लेशसे व्याकुल हुआ इधर उधर भ्रमता है । फिर मन और शरीरके श्रमसे उत्पन्न हुई जो अज्ञान-निद्रा उसके वश होता है । उसको अग्निविसर्प कहते हैं ॥ ८-१३ ॥

तृषा, भ्रम, हड्डियोंमें तोडने सरीखी पीडा, संदाग्नि, अन्धकारदर्शन, अरुचि, सम्पूर्ण शरीर प्रज्वलित अंगारोंसे आच्छादितके समान प्रतीत हो, जिस जिस स्थानमें यह विसर्प फैलता है उसी उसी स्थानमें बुझे हुए अंगारोंके समान काला, नीला और लालरंगका होकर बहुत जल्दी सूजजाता है

अग्निसे जलेके समान ऊपर फफोले पडे वह विसर्प शीघ्र फैलनेके कारण मर्मांगे प्राप्त होकर अत्यन्त प्रबल होजाता है, प्रबलतासे शरीरको पीडित करता है, संज्ञा और निद्रा जाती रहती है, श्वास अधिक बढ़ जाता है, हिचकी आने लगती है, ऐसी अवस्थाको प्राप्त होकर वह मनुष्य रोगसे दुःखित हुआ पृथिवीमें कहीं भी आसन शयनादिकोमें सुख नहीं पाता अर्थात् सदैव सबकालमें सब जगह बेचैन रहता है तब उस क्लेशसे व्याकुल हुआ इधर उधर भ्रमता है । फिर मन और शरीरके श्रमसे उत्पन्न हुई जो अज्ञान-निद्रा उसके वश होता है । उसको अग्निविसर्प कहते हैं ॥ ८-१३ ॥

अग्निसे जलेके समान ऊपर फफोले पडे वह विसर्प शीघ्र फैलनेके कारण मर्मांगे प्राप्त होकर अत्यन्त प्रबल होजाता है, प्रबलतासे शरीरको पीडित करता है, संज्ञा और निद्रा जाती रहती है, श्वास अधिक बढ़ जाता है, हिचकी आने लगती है, ऐसी अवस्थाको प्राप्त होकर वह मनुष्य रोगसे दुःखित हुआ पृथिवीमें कहीं भी आसन शयनादिकोमें सुख नहीं पाता अर्थात् सदैव सबकालमें सब जगह बेचैन रहता है तब उस क्लेशसे व्याकुल हुआ इधर उधर भ्रमता है । फिर मन और शरीरके श्रमसे उत्पन्न हुई जो अज्ञान-निद्रा उसके वश होता है । उसको अग्निविसर्प कहते हैं ॥ ८-१३ ॥

अग्निसे जलेके समान ऊपर फफोले पडे वह विसर्प शीघ्र फैलनेके कारण मर्मांगे प्राप्त होकर अत्यन्त प्रबल होजाता है, प्रबलतासे शरीरको पीडित करता है, संज्ञा और निद्रा जाती रहती है, श्वास अधिक बढ़ जाता है, हिचकी आने लगती है, ऐसी अवस्थाको प्राप्त होकर वह मनुष्य रोगसे दुःखित हुआ पृथिवीमें कहीं भी आसन शयनादिकोमें सुख नहीं पाता अर्थात् सदैव सबकालमें सब जगह बेचैन रहता है तब उस क्लेशसे व्याकुल हुआ इधर उधर भ्रमता है । फिर मन और शरीरके श्रमसे उत्पन्न हुई जो अज्ञान-निद्रा उसके वश होता है । उसको अग्निविसर्प कहते हैं ॥ ८-१३ ॥

अग्निसे जलेके समान ऊपर फफोले पडे वह विसर्प शीघ्र फैलनेके कारण मर्मांगे प्राप्त होकर अत्यन्त प्रबल होजाता है, प्रबलतासे शरीरको पीडित करता है, संज्ञा और निद्रा जाती रहती है, श्वास अधिक बढ़ जाता है, हिचकी आने लगती है, ऐसी अवस्थाको प्राप्त होकर वह मनुष्य रोगसे दुःखित हुआ पृथिवीमें कहीं भी आसन शयनादिकोमें सुख नहीं पाता अर्थात् सदैव सबकालमें सब जगह बेचैन रहता है तब उस क्लेशसे व्याकुल हुआ इधर उधर भ्रमता है । फिर मन और शरीरके श्रमसे उत्पन्न हुई जो अज्ञान-निद्रा उसके वश होता है । उसको अग्निविसर्प कहते हैं ॥ ८-१३ ॥

अग्निसे जलेके समान ऊपर फफोले पडे वह विसर्प शीघ्र फैलनेके कारण मर्मांगे प्राप्त होकर अत्यन्त प्रबल होजाता है, प्रबलतासे शरीरको पीडित करता है, संज्ञा और निद्रा जाती रहती है, श्वास अधिक बढ़ जाता है, हिचकी आने लगती है, ऐसी अवस्थाको प्राप्त होकर वह मनुष्य रोगसे दुःखित हुआ पृथिवीमें कहीं भी आसन शयनादिकोमें सुख नहीं पाता अर्थात् सदैव सबकालमें सब जगह बेचैन रहता है तब उस क्लेशसे व्याकुल हुआ इधर उधर भ्रमता है । फिर मन और शरीरके श्रमसे उत्पन्न हुई जो अज्ञान-निद्रा उसके वश होता है । उसको अग्निविसर्प कहते हैं ॥ ८-१३ ॥

अग्निसे जलेके समान ऊपर फफोले पडे वह विसर्प शीघ्र फैलनेके कारण मर्मांगे प्राप्त होकर अत्यन्त प्रबल होजाता है, प्रबलतासे शरीरको पीडित करता है, संज्ञा और निद्रा जाती रहती है, श्वास अधिक बढ़ जाता है, हिचकी आने लगती है, ऐसी अवस्थाको प्राप्त होकर वह मनुष्य रोगसे दुःखित हुआ पृथिवीमें कहीं भी आसन शयनादिकोमें सुख नहीं पाता अर्थात् सदैव सबकालमें सब जगह बेचैन रहता है तब उस क्लेशसे व्याकुल हुआ इधर उधर भ्रमता है । फिर मन और शरीरके श्रमसे उत्पन्न हुई जो अज्ञान-निद्रा उसके वश होता है । उसको अग्निविसर्प कहते हैं ॥ ८-१३ ॥

अग्निसे जलेके समान ऊपर फफोले पडे वह विसर्प शीघ्र फैलनेके कारण मर्मांगे प्राप्त होकर अत्यन्त प्रबल होजाता है, प्रबलतासे शरीरको पीडित करता है, संज्ञा और निद्रा जाती रहती है, श्वास अधिक बढ़ जाता है, हिचकी आने लगती है, ऐसी अवस्थाको प्राप्त होकर वह मनुष्य रोगसे दुःखित हुआ पृथिवीमें कहीं भी आसन शयनादिकोमें सुख नहीं पाता अर्थात् सदैव सबकालमें सब जगह बेचैन रहता है तब उस क्लेशसे व्याकुल हुआ इधर उधर भ्रमता है । फिर मन और शरीरके श्रमसे उत्पन्न हुई जो अज्ञान-निद्रा उसके वश होता है । उसको अग्निविसर्प कहते हैं ॥ ८-१३ ॥

वातपित्तोद्भवग्रन्थिविसर्पके
लक्षण ।

कफेन रुद्धः पवनो भित्त्वा तं बहुधा
कफम् । रक्तं वा वृद्धरक्तस्य त्वक्छि-
रास्त्रायुर्मांसगम् ॥ १४ ॥ दूषयित्वा
तु दीर्घाणुं वृत्तस्थूलखरात्मनाम् ।
ग्रन्थीनां कुरुते मालां रक्तानां तीव्र-
रुक् ज्वरम् ॥ १५ ॥ श्वासकासा-
तिसारास्यशोषहिधमावमिश्रमैः । मो-
हवैवर्ण्यमूर्च्छाङ्गभङ्गाग्निमदनैर्युतः ॥
इत्ययं ग्रन्थिविसर्पः कफमारुत-
कोपजः ॥ १६ ॥

अपने कारणोपे कुपितहुए, कफसे रुकीहुई और
अपने कारणोसे दूषित हुई वायु कफको और रुधि-
रको अनेक प्रकारसे बँधे हुए रुधिरवाले मनुष्यकी
त्वचामे, शिराओमे, स्त्रायुओमे और मांसमे प्राप्त
हुए रुधिरको दूषित करके लंबी, गोल, मोटी, लाल
और खरखरी गाठोकी पंक्तिको उत्पन्न करता है, इन
गाँठोंके होनेसे तीव्र वेदना, डार, श्वास, खाँसी,
अतिसार, शोष, हिचकी, वमन, भ्रम, मोह, विव-
र्णता, मूर्च्छा, अंगोका टूटना और जठराग्निकी मंदता
होती है । इसको ग्रन्थिविसर्प कहते हैं । यह कफ
और वायुके कोपसे होता है ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥

कफापित्तोत्पन्नकर्दमकविसर्पके
लक्षण ।

कफापित्ताज्ज्वरस्तम्भो निद्रातन्द्रा-
शिरोरुजा । अङ्गावसाद्विक्षेपप्रला-
पारोचकध्रमाः ॥ १७ ॥ मूर्च्छाग्नि-
हानिर्भेदोऽस्थ्यां पिपासेन्द्रियगौरवम् ।
आमोपवेशनं लेपः स्रोतसां स विस-
र्पति ॥ १८ ॥ प्रायेणाभाशयं गृह्णन्त्रै-
कदेशं न चातिरुक् । पिडकैरवकी-
र्णति पीतलोहितपांडुरैः ॥ २० ॥
स्निग्धो सितो मेघकाभो मलिनः
शोफान्गुरुः । गम्भीरपाकः प्रायो-
पमास्पर्शः स्निग्धोऽवदीर्यते ॥ २० ॥
पंकवच्छीर्णमांसश्च स्पर्शस्त्रायुशिरा-

गणः । श्वगन्धश्च वीसर्पः कर्दमाख्य-
मुशान्ति तम् ॥ २१ ॥

कफसे तथा पित्तसे उत्पन्न होनेवाला जब कर्दमक
विसर्प उत्पन्न होता है तो उसमे ज्वर, जडता, निद्रा,
तन्द्रा, मस्तकमे पीडा, अगोमे ग्लानि, विक्षेप (हाथ
पाँवोंको इधर उधर पटकना), बकवाद, अरुचि, भ्रम,
मूर्च्छा, अग्निकी मंदता, हडफूटन, तृपा, इन्द्रियोंमे
भारोपन, आमसहित दस्तका आना और मुखादि
स्रोतोंमें कफ लिसासा रहता है । यह विसर्प एक
प्रदेशको ग्रहण करके विशेष करके आमाशयमे फैल-
ता है । इसमे विशप पीडा नहीं होती । अत्यन्त
पीली, लाल तथा सफेद फुन्सियोसे व्याप्त होता है ।
स्निग्ध, काला, रुखा, कालेरगका, मलीन, सूजनयुक्त,
भारी, गम्भीर पाकवाला, छूनेसे गरम होता है, फट-
नेवाला कीचके समान त्वचाका रंग होता है, मांस
गलकर गिरनेलगे तथा स्त्रायु और शिराओको स्पर्श
करे आर उसमे सुरदेके समान वास आवे उसको
कर्दमकविसर्प कहते हैं ॥ १७-२१ ॥

क्षतजविसर्पके लक्षण ।

बाह्यहेतोः क्षतात्कुद्धः सरक्तं पित्त-
मीरयन् । वीसर्पं मारुतः कुर्यात्कु-
लित्थसदृशैश्चितम् । स्फोटैः शोथ-
ज्वररुजां दाहादृश्यं श्यावशोणि-
तम् ॥ २२ ॥

शस्त्र आदिके आघातसे, व्याघ्र, सिंह आदि जा-
नवरोक दांत या नख आदिका लग जाना इत्यादि
आगन्तुक कारणोसे क्षत होकर प्रकोपको प्राप्त हुई
वायु रुधिर और पित्तको प्रेरित करके विसर्पको
उत्पन्न करता है । यह विसर्प कुलथोके दाँवोंके
समान फुन्सियोसे व्याप्त होता है, काले रुधिरसे युक्त
होता है और सूजन, ज्वर, वेदना तथा दाहसे अत्यन्त
पीडित होता है ॥ २२ ॥

विसर्पके उपद्रव ।

ज्वरातिसारौ वमथुस्त्वङ्मांसदरणं
क्लमः । अरोचकाविपाकौ च विस-
र्पाणामुपद्रवाः ॥ २३ ॥

ज्वर, अतिसार, वमन, त्वचाका फटना, मांसका
फटना, ग्लानि, अरुचि और अन्नका अविपाक ये
सब विसर्पके उपद्रव हैं ॥ २३ ॥

साध्यासाध्य लक्षण ।

सिध्यन्ति वातकफपित्तकृता विसर्पाः
सर्वात्मकः क्षतकृतश्च न सिद्धिमे-
ति । पित्तात्मकोऽञ्जनवपुश्च भवेद्-
साध्यः प्रायेण मर्मसु भवन्ति हि
सर्व एव ॥ २४ ॥

वात, पित्त और कफजनित विसर्प साध्य है । सन्नि-
पातज और क्षतजविसर्प असाध्य है । तथा पित्तज
काले रंगका विसर्प भी असाध्य है और मर्मस्थानोंमें
उत्पन्न हुआ विसर्प भी प्रायः असाध्य है ॥ २४ ॥

तृट्श्वासमांससंकोचदाहहिक्कामद-
ज्वराः । विसर्पा मर्मसंरोधास्तेषां
प्रोक्ता ह्युपद्रवाः ॥ २५ ॥

मर्मस्थानमें उत्पन्न हुए विसर्पमें तृषा, श्वास,
मांसका संकोच, दाह, हिचकी, मद और ज्वर ये
सब उपद्रव होते हैं ॥ २५ ॥

विसर्परोगकी चिकित्सा ।

सर्वेष्वेव विसर्पेषु कुय्यालङ्घनरूक्ष-
णम् । विरेकवमनालेपसेचनाऽसृग्बि-
मोक्षणैः ॥ उपाचरेद्यथादोषं विसर्पा-
नविदाहिभिः ॥ २६ ॥

सर्वप्रकारके विसर्परोगमें लंघन, रूक्षण, विरेचन,
वमन, लेप, सेचन और रक्तमोक्षण ये सब उपचार
यथादोषानुसार प्रयोग करने चाहिये, किन्तु दाह-
करक प्रयोग कोई भी कभी नहीं करना चाहिये
॥ २६ ॥

पटोलपिचुमन्दाभ्यां पिप्पल्या मद-
नेन वा । विसर्पे वमनं शस्तं तथा
चेन्द्रयवैः सह ॥ २७ ॥

पटोलपत्र, नीम, पीपल अथवा मेनफल इनके
द्वारा इन्द्रजौ मिलाकर विसर्परोगमें वमन करानेके
लिये देवे ॥ २७ ॥

त्रिफलारससंयुक्तं सर्पिन्निवृत्तया
सह । प्रयोक्तव्यं विरेकार्थं विसर्प-
ज्वरशान्तये ॥ २८ ॥

त्रिफलेके स्वरस अथवा काथमे घी और निसोतका
चूर्ण डालकर विसर्पज्वरको शांत करनेके लिये विरे-
चनार्थ प्रयोग करे ॥ २८ ॥

गस्त्रानीलोत्पलं दाह चन्दनं मधुकं
बला । वृत्क्षीरयुतो लेपो वातधी-
सर्पनाशनः ॥ २९ ॥

रासयन, नीलेकमल, देवदारु, चन्दन, मुलैठी
और खिरैटी इनको एकत्र पीसकर घी और मधुमें
मिलाकर लेप करनेसे वातजविसर्प नष्ट होता है ॥ २९ ॥

शकृद्रसं पयोमूत्रं पञ्चमूलं च तत्सं-
मम् । एतत्सुखोष्णकं कार्यं विसर्पे-
ऽनिलसम्भवे ॥ ३० ॥

गोबरका रस, दूध, गोमूत्र और पंचमूलका काथ
इन सबको एकत्र पकाकर मन्दोष्ण सेवन करनेसे
वातज विसर्प नष्ट होता है ॥ ३० ॥

तृणवर्ज्यं विधातव्यं पञ्चमूलचतुष्ट-
यम् । प्रदेहसेकौ सर्पिर्भिविसर्पे वा-
तसम्भवे ॥ ३१ ॥

तृणपंचमूलको छोड़कर शेष चारों प्रकारके पंच-
मूलकी औषधियोंको पीसकर घीमें मिलाकर सेचन
और लेपन करना चाहिये, इससे वातजविसर्प नष्ट
होता है ॥ ३१ ॥

कुष्ठं शताह्वा सुरदारुमुस्तावाराहि-
कुस्तुम्बुरुकृष्णगन्धाः । वातेर्कवंशा-
त्तगलाश्च योज्याः सेके प्रलेपेषु तथा
घृतेषु ॥ ३२ ॥

कूठ, शतावर, देवदारु, नागरमोथा, वाराहीकन्द,
धनियां, सहिजना, आक, बाँस और नीले फूलका
पियावाँसा इनके द्वारा किया हुआ सेक प्रलेप अथवा
इनके कलरुके द्वारा घृतको पकाकर वातजविसर्पमें
प्रयोग करना चाहिये ॥ ३२ ॥

द्राक्षारग्वधकाशमर्यविफलैरण्डपी-
लुभिः । त्रिवृद्धरीतकीभिश्च विसर्पे
शोधनं हितम् ॥ ३३ ॥

दाख, अमलतास, कुम्भेर, त्रिफला, अण्डकी जड, पीलू, निसोत और हरड इनके द्वारा विसर्पमें शोधन करना चाहिये ॥ ३३ ॥

न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थप्लक्षवेतसपीलु-
भिः । चन्दनद्वयमञ्जिष्ठापद्मकोशी-
रगौरिकैः ॥ ३४ ॥ शतधौतघृतोन्मिश्रै-
ल्लैपो रक्तप्रसादनः । दाहपाकरुजा-
न्नावशोथनिर्वापणः परः ॥ ३५ ॥

वड, गूलर, पीपल, पाखर, वेत, पीलू, चन्दन, लाल चन्दन, मजीठ, पद्माख, खस और गेरू इन सबको एकत्र पीसकर सौवार धुले हुए घीमें मिलाकर लेप करनेसे शरीरका रुधिर स्वच्छ होता है तथा दाह, पाक, पीडा, स्त्राव और सूजन ये सब दूर होजाते हैं ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

दशांगलेप ।

शिरीषग्रष्टी-नतचन्दनैलामांसीह-
रिद्राद्वयकुष्ठवालैः । लेपो दशाङ्गः
सघृतः प्रयोज्यो विसर्पकुष्ठज्वरशोथ-
हारी ॥ ३६ ॥

सिरसकी छाल, मुलैठी, तगर, चन्दन, इलायची, बालछड, हलदी, वारुहलदी, कूठ और सुगंधवाला इन सबको एकत्र पीसकर घृतमें मिलाकर लेप करनेसे विसर्प, कुष्ठ, ज्वर और सूजन नष्ट होती है ॥ ३६ ॥

प्रपौण्डरीकं मञ्जिष्ठा पद्मकोशीरच-
न्दनैः । सघष्टीन्दीवरैः पैत्ते क्षीरपि-
ष्टैः प्रलेपनम् ॥ ३७ ॥

पुण्डेरिया, मजीठ, पद्माख, खस, चन्दन, मुलैठी और कमल, इन सबको एकत्र दूधमें पीसकर प्रलेप करनेसे पित्तज विसर्प नष्ट होता है ॥ ३७ ॥

कशेरुशृङ्गाटकपद्मगुन्द्राः सशैवलाः
सोत्पलकर्ममाश्च । बह्मन्तराः पि-
त्तकृते विसर्पे लपो विधेयः सघृतः
सुशोतः ॥ ३८ ॥

चनेरू, मिघाड, कमल, गुन्द्रकतृण, सिवार, कर्मो-
दिना और कौच इन सबको एकत्र पीसकर घीमें

मिला कर बन्धमें लपेटकर अर्थात् कपडे पर लेपकर उस कपडेको चिपका देनेसे पित्त जनित विमर्ष नष्ट होता है ॥ ३८ ॥

मृणालचन्दनं लोध्रमुशीरं कमलै-
त्पलम् । शारिवा शल्लकी पथ्या प्र-
देहाः पित्तमुद्धराः ॥ ३९ ॥

कमलकी नाल, चन्दन, लोध्र, खस, कमल, कर्मोदिनी, शारिवा, साल और हरड इन सबको एकत्र पीसकर लेप करनेसे पित्तज विसर्प नष्ट होता है ॥ ३९ ॥

प्रदेहाः परिषेकाश्च शस्यन्ते पञ्चव-
ल्कलैः । पद्मकोशीरमधुकचन्दनैर्वा
प्रशस्यते ॥ ४० ॥

पंचवल्कलको पीसकर लेप और सेचन करनेसे अथवा पद्माख, खस, मुलैठी अथवा चन्दन इनको पीसकर लेप और सेकादि करनेसे पित्तज विसर्प नष्ट होता है ॥ ४० ॥

न्यग्रोधपादा गुन्द्रा च कदलीगर्भ ए-
व च । विषयग्रन्थिकलेपः स्याच्छत-
धौतघृतप्लुतः ॥ ४१ ॥

वडकी डाढी, गुन्द्रकतृण और केलेकी गोव इनको एकत्र पीसकर सौवार धुले हुए घीमें मिलाकर लेप करनेसे ग्रन्थिविसर्प नष्ट होता है ॥ ४१ ॥

मांसीसर्जरसं लोध्रं मधुकं सह रेणु-
भिः । हरेणवो मसूराश्च मुद्गाश्चैव
सशालयः । पृथग् लेपा विसर्पघ्नाः
सर्वे वा सर्पिषा सह ॥ ४२ ॥

बालछड, गल, लोध्र, मुलैठी और रेणुका अथवा हरेणुका, मसूर, मूंग और गालिचावल इन प्रत्येक औषधियोंका अलग अलग लेप करनेसे अथवा इन सबको एकत्र मिलाकर घीमें पीसकर लेप करनेसे विसर्परोग नष्ट होता है ॥ ४२ ॥

श्लष्मिके बमने पूर्वं रेचनं च कफाप-
हम् ॥ ४३ ॥

कफज विसर्परोगमें प्रथम बमन करावे और कफ-
नाशक विरेचन दवे ॥ ४३ ॥

मदनं मधुकं निम्बं वत्सकस्य फलानि
च । वमनश्च विधातव्यं विसर्पे कफ-
सम्भवे ॥ ४४ ॥

मैतफल, मुलैठी, नीम और इन्द्रजौ इनके द्वारा
कफसे उत्पन्न हुए विसर्पमे वमन करावे ॥४४॥

गायत्रीसप्तपर्णाब्दवासारग्वधदारु-
भिः । कुटन्नटैर्भवेलेपो विसर्पे श्लेष्म-
सम्भवे ॥ ४५ ॥

खैर, सतौना, नागरमोथा, अडूसा, अमलतास,
देवदारु और ज्योत्नाक इन सबको एकत्र पीसकर लेप
करनेसे कफजनित विसर्परोग नष्ट होता है ॥ ४५ ॥

अजाश्वगन्धा सरलाथ कालसैके-
शिवा चाप्यथवाजशृङ्गी । गोमूत्रपि-
ष्टैर्विहितः प्रदेहो हन्याद्विसर्पं कफजं
लुशीघ्रम् ॥ ४६ ॥

मेढाशिगी, असगंध, धूपसरल, नाडीका शाक
अथवा केवल इकली हरड, या मेढाशिगीको गोमूत्रमे
पीसकर लेप करनेसे कफका विसर्प नष्ट होता है ४६॥

त्रिफलापत्रकोशीरसमङ्गाकरवीरक-
म् । नलमूलमनन्ता च लेपः श्लेष्म-
विसर्पहा ॥ ४७ ॥

त्रिफला, पत्राख, खस, मजीठ, कनेर, नरसलकी
जड और अनन्तमूल इन सबको एकत्र पीसकर लेप
करनेसे कफज विसर्प नष्ट होता है ॥ ४७ ॥

काकजङ्गाशिरीषस्य पुष्पं श्लेष्मात-
कत्वचम् । कृतमालकपत्राणि चाश्व-
गन्धा प्रियङ्गवः ॥ प्रदेहः कफवीसर्पे
कटूष्णः सुप्रयोजितः ॥ ४८ ॥

काकजंघा (मसी) और सिरसके फूल, लिसो-
डेकी छाल, अमलतासेके पत्ते, असगंध और फूलप्रि-
यंगू इनको एकत्र पीसकर मद्योष्ण करके लेप करनेसे
कफका विसर्प नष्ट होता है ॥ ४८ ॥

आरग्वधस्य पत्राणि त्वचः श्लेष्मात-
कोद्भवाः । शिरीषपुष्पसहिता हिता
लेपावचूर्णनैः ॥ ४९ ॥

अमलतासके पत्ते, लिसौडेकी छाल और सिरसके
फूल इनका एकत्र चूर्ण करके लेप करनेसे कफजवि-
सर्प नष्ट होता है ॥ ४९ ॥

मुस्तारिष्टपटोलानां काथः सर्ववि-
सर्पनुत् । धात्रीपटोलमुद्गानामथवा
वृतसंयुतः ॥ ५० ॥ अमृतघनपटोलं
निम्बकल्कैरुपेतं त्रिफलखादिसारं
व्याधिघातश्च तुल्यम् ॥ क्लथितमिद-
मशेषं गुग्गुलोः पादयुक्तं हरति
विषविसर्पान्कुष्ठसङ्घातमाशु ॥ ५१ ॥

नागरमोथा, नीमकी छाल और पटोलपत्र इनका
काथ सब विसर्परोगोको दूर करता है । अथवा
आमले, मूँग और पटोलपत्र इनके काथमे घी डाल-
कर सेवन करनेसे अथवा गिलोय, नागरमोथा, पटो-
लपत्र, नीमकी छाल, त्रिफला, खैरसार और अमलतास
इन सबको समान भाग लेकर काथ बनाकर गूगल
डालकर पान करनेसे सर्व प्रकारके विष विसर्प और
सर्वप्रकारके कुष्ठरोग नष्ट होते हैं ॥ ५० ॥ ५१ ॥

भूनिम्बवासाकटुकापटोलं फलत्रिकं
चन्दननिम्बसिद्धः । विसर्पदाहज्वर-
शोषकंडूविस्फोटतृष्णावभिनुत्कषा-
यः ॥ ५२ ॥

चिरायता, अडूसा, कुटकी, पटोलपत्र, त्रिफला,
चन्दन और नीमकी छाल इनका काथ बनाकर पान
करनेसे विसर्प, दाह, ज्वर, शोष, कण्डू, विस्फोट,
तृषा और वमन दूर होती है ॥ ५२ ॥

पटोलं पिचुमन्दश्च दावी कटुकरो-
हिणीम् । यष्ट्याहं त्रायमाणश्च द-
द्याद्वीसर्पशान्तये ॥ ५३ ॥

पटोलपत्र, नीमकी छाल, वारुहलदी, कुटकी,
मुलैठी और त्रायमाण इनका काथ बनाकर विसर्पको
जांत करनेके लिये सेवन करे ॥ ५३ ॥

त्रायन्ती निम्बदारुकुण्डलिधात्रीप-
टोलकटुकाभिः । काथो हन्ति वि-
सर्पान्मकरन्दयुतो वृद्धदारान् ॥ ५४ ॥

त्रायमाण, नीम, देवदारु, गिलोय, आमले, पटो-
लपत्र और कुटकी इनका काथ बनाकर जहद और
विधारेका चूर्ण डालकर पान करनेसे विसर्परोग नष्ट
होता है ॥ ५४ ॥

त्रिदोषजां क्रियां कुर्व्याद्विसर्पे द्वन्द्व-
सम्भवे । सकफे रक्तपित्ते च त्रिफलां
योजयेत्पुरैः ॥ ५५ ॥

द्वन्द्वजविसर्पोंमें त्रिदोषनाशक चिकित्सा करनी
चाहिये । कफज और रक्तपित्तसंयुक्त विसर्पमें त्रिफ-
लेको गूगलेक साथ सेवन करे ॥ ५५ ॥

दुरालभां पर्पटकां पटोलं कटुकां त-
था । कोष्णं गुग्गुलुसंमिश्रं पिबेद्वा
खदिराष्टकम् ॥ ५६ ॥

धमासा, पित्तपापडा, पटोलपत्र और कुटकी
इनका काथ बनाकर सन्दीपण करके गूगल डालकर
पान करनेसे अथवा खदिराष्टक नामक काथको पान
करनेसे द्वन्द्वज विसर्प नष्ट होता है ॥ ५६ ॥

वातपित्तप्रशामनमग्निवीसर्परोहणम् ।
कफपित्तप्रशामनं प्रायः कर्दमसंज्ञके ५७ ॥

अग्निविसर्पमें वातपित्तनाशक चिकित्सा करनी
चाहिये और कर्दमनामक विसर्पमें कफपित्तनाशक
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ५७ ॥

वातपित्तहरं कर्म अग्निवीसर्पिणे
हितः । मसूरिस्फोटकुष्ठघ्नी क्रिया
योज्या विसर्पिणाम् ॥ ५८ ॥

अग्नि विसर्पमें वातपित्तनाशक चिकित्सा हितका-
रक है । तथा मसूरिका स्फोट और कुष्ठरोगोंमें जो
चिकित्सा कही है वह सब विसर्परोगोंमें भी प्रयोग
करनी चाहिये ॥ ५८ ॥

कुष्ठामयस्फोटमसूरिकोक्तचिकित्स-
याप्याशु हरेद्विसर्पान् । सर्वास्तु प-
क्वान्परिशोधय धीमान्ब्रणक्रमेणोपच-
रेद्यथोक्तम् ॥ ५९ ॥

कुष्ठरोग, स्फोट और मसूरिकारोगमें जो चिकित्सा
कही है वही चिकित्सा विसर्पको दूर करनेके लिये
करनी चाहिये । सर्वप्रकारके पक्ष विसर्पोंको अच्छे
प्रकारसे शुद्ध करके पश्चान् ब्रणके समान ब्रणरोगोंके
चिकित्सा करे ॥ ५९ ॥

यच्च सर्पिर्महातित्तं पित्तकुष्ठनिवर्हं
णम् । निर्दिष्टं तदपि प्राज्ञो दद्याद्द्वी-
सर्पशान्तये ॥ ६० ॥

महातित्तघृत तथा अन्यान्य पित्त और कुष्ठको
नष्ट करनेवाले समस्त घृत विसर्परोगमें प्रयोग
करने चाहिये ॥ ६० ॥

वृषाद्यघृत ।

वृषखदिरपटोलनिम्बपत्रत्वग्मृतसु-
शिवाकषायकल्केः । घृतमभिनवमे-
तदाशु पक्वं जयति खलु विसर्पकुष्ठ-
गुल्मान् ॥ ६१ ॥

अहूसा, खैर, पटोलपत्र, नीमके पत्ते, नीमकी
छाल, गिलोय और हरड इनके कल्क और काथके
द्वारा उत्तम नवीन घृतको पकावे । यह घृत-विसर्प,
कुष्ठ और गुल्मको नष्ट करता है ॥ ६१ ॥

गौरवाद्यघृत ।

द्वे हरिद्रे स्थिरा मूर्वा शारिवा चन्द-
नद्वयम् । मधुकं मधुपर्णी च पद्मकं
पद्मकेशरम् ॥ ६२ ॥ उशीरमुत्पलं
भेदा त्रिफला पञ्चवल्कलम् । कल्के-
रक्षसमैरेभिर्घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ६३ ॥
विषवीसर्पविस्फोटकीटलूताव्रणाप-
हम् । गौरवाद्यमिति ख्यातं सर्पिः
श्रेष्ठमनुत्तमम् ॥ ६४ ॥

हलदी, दारुहलदी, शालिपर्णी, मूर्वा, शारिवा,
चन्दन, लालचन्दन, मुलैठी, गिलोय, पद्माख, कम-
लकेशर, खस, कमोदिनी, मेदा, त्रिफला और पंच-
वल्कल इन प्रत्येक औषधियोंका एक २ तोला कल्क
लेकर एक प्रस्थ घृतको पकावे । यह घृत-विष,
विसर्प, विस्फोट, कीट, लूता और सब प्रकारके

त्रणोंको नष्ट करता है । इस उत्तम घृतको गौरवाद्य कहते हैं ॥ ६२-६४ ॥

कुष्ठेषु यानि सर्पाणि व्रणेषु विविधेषु च । विसर्पेषु प्रयोज्यानि सेकालेपन-भोजनैः ॥ ६५ ॥

कुष्ठरोगमें और व्रणरोगमें जो अनेक प्रकारके घृत कहे हैं वे सब परिसेचन, लेप और भोजनके द्वारा विसर्परोगमें भी प्रयोग करने चाहिये ॥ ६५ ॥


करञ्जतैल ।

करञ्जसप्तच्छदलाङ्गलीकस्तुह्यर्कदु-
ग्धानलभृङ्गराजैः । तैलं निशामूत्र-
विषैर्विपक्वं विसर्पविस्फोटविचर्चि-
कात्रम् ॥ ६६ ॥

करंज, सतौना, कलिहारी, थूहरका दूध, आ-
कका दूध, चीता और भोंगरा इनके काथमें हलदीका
कलक, गोमूत्र और विपका कलक डालकर तेलको
सिद्ध करे । यह तैल-विसर्प, विस्फोट और विचर्चि-
का रोगको नष्ट करता है ॥ ६६ ॥

इति श्रीवज्रलेने भापाटीकाया विसर्परोगाधि-
कार समाप्त ॥ ६० ॥

अथ विस्फोटकरोगाधिकार ।



कटुम्लतीक्ष्णोष्णविदाहिरूक्षक्षारैर-
जीर्णाध्यशनातपैश्च । तथर्तुदोषेण
विपर्ययेण कुप्यन्ति दोषाः पवना-
द्यस्तु ॥ १ ॥ त्वच्चमाश्रित्य ते रक्तं
मांसास्थीनि प्रदूष्य च । घोरान्कुर्वन्ति
विस्फोटान्सर्वाञ्ज्वरपुरःसरान् ॥ २ ॥

चरपरे या तीखे, खट्टे, तीक्ष्ण, गरम, दाहका-
रक, रुखे और खारी पदार्थोंसे, अजीर्णसे, भोजनपर
भोजन करनेसे, धूप या अग्निका सेवन करनेसे और
ऋतुओंके परिवर्तनसे तथा उन ऋतुओंमें आहार
विहारकी विपरीततारो कोपको प्राप्त हुए वातादि दोष

रुधिर, मांस तथा अस्थियोंको दूषित करके
ज्वरको उत्पन्न कर त्वचामे सर्वप्रकारके भयंकर
विस्फोटोंको उत्पन्न करते हैं ॥ १ ॥ २ ॥

विस्फोटकका स्वरूप ।

अग्निदग्धनिष्ठाः स्फोटाः सज्वरा र-
क्तपित्तजाः । क्वचित्सर्वत्र वा देहे
विस्फोटक इति स्मृतः ॥ ३ ॥

ज्वरयुक्त रुधिर तथा पित्तसे उत्पन्न हुआ अग्निसे
जलाये हुएके समान ऐसा फोडा शरीरके किसी एक
प्रदेशमें अथवा सम्पूर्ण शरीरमें उत्पन्न होता है तब
उसको विस्फोटक कहते हैं । जिसप्रकार सब प्रका-
रकी पीडाओंमें वायुको प्राधान्य है उसी प्रकार सर्व-
प्रकारके विस्फोटकोंमें रुधिर और पित्तकी प्रधानता
है, विस्फोटकोंको उत्पन्न करनेमें रुधिर तथा पित्तमें
वायुका सम्बन्ध भी होता है ऐसा जानना ॥ ३ ॥

वातज विस्फोटकके लक्षण ।

शिरोरूक् शूलभूयिष्ठं ज्वरतृट् पर्व-
भेदनम् । सकृष्णवर्णता चेति वात-
विस्फोटलक्षणम् ॥ ४ ॥

शिरमें पीडा, शूल, ज्वर, तृषा, संधियोंमें तोड़ने
सरीखी पीडा और फोड़ोका वर्ण कृष्ण हो यह वातज
विस्फोटकके लक्षण जानने ॥ ४ ॥

पित्तजविस्फोटकके लक्षण ।

ज्वरदाहरुजास्त्रावपाकतृष्णाभिरान्वि-
तम् । पीतलोहितवर्णश्च पित्तविस्फो-
टलक्षणम् ॥ ५ ॥

ज्वर, दाह, दुःख, त्राव (वहना), पकना, तृषा,
त्रणका रंग पीला और लाल हो ये सब लक्षण पित्तज
विस्फोटकके जानने ॥ ५ ॥

कफज विस्फोटकके लक्षण ।

छर्द्यरोचकजाड्यानि कंडूकाठित्य-
पांडुताः । अवेदनश्चिरात्पाकी स वि-
स्फोटः कफात्मकः ॥ ६ ॥

वमन, अरुचि, जडता, फोडोंमें खुजली, कठिनता और फोडे पांडुवर्णके हों, पीडारहित और बहुत दिनोंमें पके ये सब लक्षण कफज विस्फोटकके जानने ॥६॥

कफपित्तात्मक विस्फोटकके लक्षण ।

कंडूर्दाहोऽरुचिश्छर्दिरेतेस्तु कफपै-
त्तिकः ।

कफपित्तज विस्फोटकमें खुजली, दाह, अरुचि और वमन होती है ।

वातपित्तात्मक विस्फोटकके लक्षण ।

वातपित्तात्मको यस्तु कुरुते तीव्रवे-
दनाम् ।

वातपित्तज विस्फोटकमें अत्यन्त पीडा होती है ।

कफवातात्मकविस्फोटकके लक्षण ।

कंडूस्तौमित्यगुरुभिर्जानीयात्कफवा-
त्तिकम् ॥ ७ ॥

कफवातज विस्फोटकमें खुजली, अंगोमें जडता और भारीपन होता है ॥ ७ ॥

त्रिदोषजनित विस्फोटकके लक्षण ।

मध्ये निम्नोन्नतोऽन्ते च कठिनोऽल्प-
प्रपाकवान् । दाहरागन्तृषामोहच्छर्दि-
मूर्च्छारुजो ज्वरः । प्रलापो वेपथुस्त-
न्द्रा सोऽसाध्यः स्यात्त्रिदोषजः ॥ ८ ॥

बीचमें नीचा, चारों ओर ऊँचा, कठिन, थोडा पकनेवाला, दाह, लाली, तृषा, मोह, वमन, मूर्च्छा, वेदना, ज्वर, वृथा वकवाद, कंप और तन्द्रा ये सब लक्षण त्रिदोषजविस्फोटकमें होते हैं यह असाध्य है ८

रक्तजविस्फोटकके लक्षण ।

रक्तारक्तसमुत्थाना गुआफलनिभा-
स्तथा । वेदितव्यास्तु रक्तेन पैत्तिके-
न च हेतुना ॥ न ते सिद्धिं समाया-
न्ति सर्वैर्योगवरैरपि ॥ ९ ॥

पित्तको कुपित करनेवाले जो कारण हैं उन्हीं कार-
णोंसे रुधिर भी कुपित होता है । इसप्रकार कुपित
रुधिरसे उत्पन्न हुए विस्फोटक चौटलीके समान लाल

साववाले और दाह करनेवाले होते हैं । यह विस्फो-
टक सैरुडों अनुभव किये हुए सिद्धयोगसेभी आरोग्य
नहीं होते हैं ॥ ९ ॥

साध्यासाध्यविचार ।

एकदोषोत्थितः साध्यः कृच्छ्रसाध्यो
द्विदोषजः । सर्वरूपांश्चित्तो दोर-
स्त्वसाध्यो भूर्युपद्रवः ॥ १० ॥

एक दोषसे उत्पन्न हुआ विस्फोटक साध्य, द्विदो-
षज विस्फोटक कष्टसाध्य और त्रिदोषज विस्फोटक
तथा जिसमें अनेक उपद्रव हो उसको असाध्य
जानना ॥ १० ॥

विस्फोटकके उपद्रव ।

हिक्का श्वासोऽरुचिस्तृष्णा चाङ्गमर्दा
हृदि व्यथा । विसर्पज्वरहृत्सा वि-
स्फोटानामुपद्रवाः ॥ ११ ॥

हिचकी, श्वास, अरुचि, तपा, शरीरका टूटना,
हृदयमें पीडा, विसर्प, ज्वर और उवकाई ये सब
विस्फोटकके उपद्रव हैं ॥ ११ ॥

विस्फोटककी चिकित्सा ।

तत्रादौ लङ्घनं कार्यं वमनं पथ्यभो-
जनम् । यथायुक्तं बलं वीक्ष्य युक्त-
मुक्तं विरेचनम् ॥ १२ ॥

विस्फोटकरोगमें प्रथम लंघन करावे तथा वमन
और पथ्यभोजन एवं दोष और अम्लिका बलावल
विचार कर विरेचन देवे ॥ १२ ॥

पटोलेन्द्रयवारिष्ठवचामदनसाधित-
म् । वमनं तत्प्रदातव्यं विस्फोटे कफ-
पैत्तिके ॥ १३ ॥

कफपित्तजनित विस्फोटकरोगमें पटोलपत्र, इन्द्र-
जौ, नीम, वच और मैतफल इनके द्वारा वमन
करावे ॥ १३ ॥

क्षुधिते लङ्घिते वान्ते जीर्णशालि-
यवादिभिः । मुद्गाटकीमसूराणां र-
सैर्वा विश्वस्युतैः ॥ १४ ॥

विस्फोटकमें क्षुधाके समय, लंघन किये हुए
और वमन किये हुए रोगीको पुराने शालिधानके

चावल, पुरानं जौ, मूँग, अरहर और मसूर इनके
यूपको मांसरस और सांठके साथ सेवन करे ॥१४॥

सुनिषण्णकवेत्राभ्रतंडूलीयककेतकैः ।

कुलकाभीरुकैरेभिः सपर्पटसतीन-
कैः ॥ १५ ॥ कर्कोटकारवेल्लैश्च कुसु-
मैर्निम्बविल्वजैः । तिक्तद्रव्यसमा-
युक्तं भोजनं संप्रयोजयेत् ॥ १६ ॥

शिरिआरी, वेतका अग्रभाग, चौलाई काटोंवाली,
केतकी, बेर, शतावर, पित्तपापडा, कांगुनी या चीना
कक्रोडा, करेला, नीमके फूल और वेलके फूल इनके
एवं अन्यान्य तिक्तपदार्थोंको भोजनादिमे प्रयोग
करे ॥१५-१६ ॥

द्विपञ्चमूलं रास्ना च दारव्युशीरं दुरा-
लभाम् । अमृताधान्यकं सुस्तं जये-
द्रातसमुद्रवाम् ॥ १७ ॥

दशमूल, रायसन, दारुहलदी, खस, धमासा,
गिलोय, धनियां और नागरमोथा इनका काथ बनाकर
पान करनेसे वातज विस्फोटक नष्ट होता है ॥१७ ॥

द्राक्षाकाशमर्ध्यखर्जूरपटोलारिष्टवा-
सकैः । कटुकालाजदुःस्पर्शैः सिता-
युक्तं तु पैत्तिके ॥ १८ ॥

दाख, कुम्भेर, खजूर, पटोलपत्र, नीम, अडूसा,
कुटकी, रीलें और धमासा इनके काथमे मिश्री मिला
कर पान करनेसे पित्तजविस्फोटक नष्ट होता है ॥१८॥

भूनिम्बनिम्बवासाश्च त्रिफलेन्द्रय-
वासकैः । पिचुमन्दं पटोलश्च सक्षौद्रं
कफजे हितम् ॥ १९ ॥

चिरायता, नीमकी छाल, अडूसा, त्रिफला, इन्द्रजौ,
जवासा, नीम और पटोलपत्र इनके काथमे शहद
डालकर पान करनेसे कफजविस्फोटक नाश होता
है ॥ १९ ॥

किराततिक्तकारिष्टयष्टयाह्वाम्बुद-
वासकम् । पटोलपर्पटोशिरित्रिफला-
कौटजान्वितम् ॥ द्वादशाङ्गं तथैवै-
तत्सर्वविस्फोटनाशनम् ॥ २० ॥

चिरायता, नीमकी छाल, मुलैठी, नागरमोथा, अडू-
सा, पटोलपत्र, पित्तपापडा, खस, त्रिफला और कुडकी

छाल, ये प्रत्येक औषधि समान भाग लेकर काथ
बनावे । इस द्वादशांगनामक काथको पान करनेसे
सर्वप्रकारके विस्फोटकरोग नष्ट होते हैं ॥ २० ॥

पटोलामृतभूनिम्बवासकारिष्टपर्प-
टैः । खदिराष्टयुतैः काथो विस्फो-
टज्वरशान्तये ॥ २१ ॥

पटोलपत्र, गिलोय, चिरायता, अडूसा, नीम
और पित्तपापडा इनके काथमें खदिराष्टककी औषधि
डालकर पान करनेसे विस्फोटकज्वर नष्ट होता है २१

कुण्डलीपिचुमन्दं बुखदिरैन्द्रयवाम्बु-
ना । विस्फोटं नाशयत्याशु वायुर्ज-
लधरानिव ॥ २२ ॥

गिलोय, नीम, सुगन्धवाला, खैर और इन्द्रजौ
इनके काथको पान करनेसे शीघ्र ही विस्फोटकरोग
नष्ट होता है जैसे वायुके वेगसे वादल नष्ट होजाते
हैं ॥ २२ ॥

अमृतवृषपटोलं सुस्तकं सप्तपर्णं ख-
दिरमसितवेत्रं निम्बपत्रं हरिद्रे । वि-
विधविषविसर्पं कुष्ठविस्फोटकण्डू-
रपनयति मसूरीं शीतपित्तं ज्वरश्च २३

गिलोय, अडूसा, पटोलपत्र, नागरमोथा, सतौना,
खैर, कालावेत, नीमके पत्र, हलदी और दारुहलदी
इनका काथ बनाकर पान करनेसे विविधप्रकारके
विष, विसर्प, कुष्ठ, विस्फोट, कण्डू, मसूरिका, शीत
पित्त और ज्वर नष्ट होते हैं ॥ २३ ॥

पटोलत्रिफलारिष्टयुद्धुचीसुस्तचन्द-
नैः । समूर्वा रोहिणी पाठा रजनी स-
दुरालभा ॥ २४ ॥ कषायं योजयेद्दे-
तत्पित्तश्लेष्मज्वरापहम् । कण्डूत्वग्दो-
षविस्फोटविषवीसर्पनाशनम् ॥ २५ ॥

पटोलपत्र, त्रिफला, नीमकी छाल, गिलोय, नागर-
मोथा, चन्दन, मूर्वा, कुटकी, पाठ, हलदी और धमा-
सा इनका काथ बनाकर पान करनेसे पित्तकफज्वर,
खुजली, त्वचाके विकार, विस्फोट, विषबाधा और
विसर्पराग नष्ट होता है ॥ २४ ॥ २५ ॥

द्वभागलेप ।

शिरीषयष्टीनतचन्दनलामांसीहरि-
द्राद्वयकुष्टवालैः । लेपो दशाङ्गः स-
वृतः प्रयोज्यो विसर्पविस्फोटक-
ण्डुहारी ॥ २६ ॥

सिरसकी छाल, मुँलैठी, तगर, चन्दन, इलाय-
ची, वालुछट, हलदी, वारुहलदी, कूठ और सुगन्ध-
वाला इन सबको समान भाग लेकर कूट पीसकर
घीमे मिलाकर लेप करनेसे विसर्प, विस्फोट और
कण्डूरोग नष्ट होते हैं ॥ २६ ॥

चन्दनं नागपुष्पञ्च तंडुलीयकशारि-
वा । शिरीषवल्कलं पत्रं लेपः स्या-
दाहनाशनः ॥ २७ ॥

चन्दन, नागकेशर, काँटोंवाली चाँलाई, शारिवा
और सिरसकी छाल तथा पत्र इनको एकत्र पीसकर
लेप करनेसे दाह नष्ट होती है ॥ २७ ॥

विस्फोटव्याधिनाशाय तंडुलांबुप्रपे-
षितैः । बीजैः कुटजवृक्षस्य लेपः
कार्यो विजानता ॥ २८ ॥

कुड़ेके बीज अर्थात् इन्द्रजौको चावलोके जलमे
पीसकर लेप करनेसे विस्फोटक दूर होता है ॥ २८ ॥

उत्पलं चन्दनं लोध्रमुशीरं शारिवा-
द्वयम् । जलेन पिष्ट्वा लिम्पेत स्फा-
टदाहार्तिनाशनम् ॥ २९ ॥

कमोदनी, चन्दन, लोध, खस और मोनों शारिवा
इनको जलमे पीसकर लेप करनेसे स्फोटककी दाह
और पीडा शांत होती है ॥ २९ ॥

शिरीषोशीरनागाह्विंस्त्राभिलेपना-
द्द्रुतम् । विसर्पविषविस्फोटाः प्रशा-
म्यन्ति न संशयः ॥ ३० ॥

सिरसकी छाल, खस, नागकेशर और हींग इन
सबको एकत्र पीसकर लेप करनेसे विसर्प, विष और
विस्फोटक अवश्य शांत होते हैं ॥ ३० ॥

शिरीषचन्दनान्नानिन्तिडीचन्द्रपूर-
कैः । प्रलेपः सवृतः कार्यो विस्फोट-
श्लेष्मनाशनः ॥ ३१ ॥

सिरस, चन्दन, रंगुआ, गिंतीडी और विजांग-
नीचू इनको एकत्र पीसकर घीमे मिलाकर लेप कर-
नेसे विस्फोटक और कफ नष्ट होता है ॥ ३१ ॥

शिरीषोदुम्बरो जम्बु सेकालेपनगं-
हिताः । श्लेष्मानकत्वचां वापि प्रले-
पाश्चांतने हिताः ॥ ३२ ॥

सिरसकी छाल, गुग्गुली छाल और जामुनकी
छाल इनके द्वारा लेप करना विस्फोटक-
रोगमें हितकारी है । लिमोंकी छालको पीसकर
लेप और आध्वोननकर्ममें प्रयोग करें ॥ ३२ ॥

शिरीषपूगमज्जिष्ठाचव्यामलकयष्टि-
काः । सजातिपल्लवक्षोद्रा विस्फोटे
कवलग्रहाः ॥ ३३ ॥

सिरसकी छाल, सुपारी, मजीठ, चव्य, आमलं,
मुँलैठी, चमेलीके पत्त और शब्द इनका कवल बना-
कर विस्फोटकरोगमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ३३ ॥

पद्मकवृत ।

पद्मकं मधुकं लोध्रं नागपुष्पञ्च केश-
रम् । द्वे हरिद्रे विडङ्गानि सूक्ष्मैला
नगरं तथा ॥ ३४ ॥ कुष्ठं लाक्षापत्र-
कञ्च सिन्धूतथं तुत्यमेव च । तोयेना-
लोड्य तत्सर्वं घृतप्रस्थं विषाचयेत् ॥
३५ ॥ यांश्च रोगान्निहन्त्येतत्ता-
न्निबोध महासुने । सर्पकीटादिदृष्टेषु
लूता सूत्रकृतेषु च ॥ ३६ ॥ विवि-
धेषु च स्फोटेषु तथा कुष्ठविसर्पेषु ।
नाडीषु गण्डमालासु प्रभिन्नासु
विशेषतः ॥ ३७ ॥ अगस्तिविहितं
धन्यं पद्मकं तु महाघृतम् ॥ ३८ ॥

पद्माख, मुँलैठी, लोध, नागकेशर, केशर, हलदी,
वारुहलदी, वायविडंग, छोटी इलायची, तगर, कूठ

लाख, तेजपात, सैधानमक और नूतिया इन सबको जलमे पीसकर इस कल्कके द्वारा एक प्रस्थ घीको पकावे । यह घृत-सर्पका विष, कीडेका विष, लूताके मूतनेसे उत्पन्न हुआ विष, विविध प्रकारके विस्फोटकरोग, सर्व प्रकारके कुष्ठ और विसर्प रोग, नाडीव्रण और गण्डमाला इन सबको नष्टकरता है । इस सहायक घृतको अगस्त्यजीने निर्माण किया है । यह धन्य है ॥ ३४-३८ ॥

पञ्चतित्तकघृत ।

पटोलसप्तच्छदनिम्बवासाफलत्रिक-
च्छिन्नरुहाविपक्वम् । तत्पञ्चतित्तं
घृतमाशु हन्ति त्रिदोषविस्फोटवि-
सर्पकण्डूः ॥ ३९ ॥

पटोलपत्र, सतौना, नीमकी छाल, अहूसा, त्रिफला और गिलोय इनके कल्क और काथके द्वारा घृतको पकावे । यह घृत-त्रिदोषज विस्फोटकरोग, विसर्प और कण्डूको नष्ट करता है ॥ ३९ ॥

कम्पिल्लकाद्यतैल ।

कम्पिल्लकं विडङ्गानि वत्सकं त्रिफलां
बलाम् । पटोलं पित्रुमन्दश्च लोभ्रं सुस्त-
प्रियंगुकम् ॥ ४० ॥ धातकी ख-
दिरं सर्जमेला चागुरुचन्दनम् । पि-
ट्टा तैलं भवेत्साध्यं तत्तैलं व्रणरोप-
णम् ॥ ४१ ॥

कवीला, वायविडंग, कुडेकी छाल, त्रिफला, खिरैटी, पटोलपत्र, नीम, लोध, नागरमोथा, फूलप्रियंगू, वायके फूल, खैरसार, राल, इलायची, अगर और चन्दन इनके कल्कके द्वारा तेलको पकावे । यह तेल व्रणको भरने वाला है ॥ ४० ॥ ४१ ॥

पीत्वा घृतं महातित्तं कौशिकेन च
साधितम् । कदाचिद्रक्तमोक्षश्च जा-
त्वा दोषं प्रयोजयेत् ॥ ४२ ॥

विस्फोटकरोगमे गूगलके द्वारा सिद्ध किया हुआ महानिक्तघृत भी प्रयोग करना चाहिये । तथा दोषोंके

वलावलको विचारकर कभी रक्तमोक्षण भी करना चाहिये ॥ ४२ ॥

इति श्रीवज्रसेने भापाटीकायां विस्फोटक-
रोगाधिकार समाप्त ॥ ६१ ॥

अथ स्नायुरोगाधिकार ।

शाखास्तु कुपितो दोषः शोथं कृत्वा
विसर्पवत् । भित्त्वैव तं क्षते तत्र सो-
ष्णा मांसं विशोष्य च ॥ १ ॥ कुय्या-
त्तन्तुनिभं सूत्रं वृत्तं सितद्युतिं बहिः ।
शनैः शनैः क्षतादेति छेदात्तत्कोष-
भावहेतु ॥ २ ॥ तत्पाताच्छोथशा-
न्तिः स्यात्पुनः स्थानान्तरे भवेत् ।
स स्नायुकः परिख्यातः क्रियोक्तात्र
विसर्पवत् ॥ ३ ॥ बाह्वोर्यदि प्रभादेन
हुद्यते जङ्घोरपि । लङ्कोचं खञ्जतां
चापि छिन्नो नूनं करोत्यसौ ॥ ४ ॥

हाथ, पाँव आदि शाखाओंमे वातादिविष कुपित होकर विसर्पके समान सूजनको उत्पन्न करते हैं । पश्चात् उस स्थानकी गरमी सूजनका फोडकर स्नायुको सुखाकर तंतु अर्थात् डोरेकी समान सफेद जीवको उत्पन्न करती है । यह डोरा शनैः शनैः व्रणमेसे निकलता है और जो वीचमेसे टूट जावे तो अत्यन्त पीडा होती है । जब सब निकल जाता है तब सूजन शांत होजाती है । किसीको फिर दूसरे स्थानमे उत्पन्न होता है, इसको सस्कृत भाषामे स्नायुकरोग कहते हैं और देशभाषामे नहरुआ कहते हैं । इसकी विसर्पकी समान चिकित्सा करनी चाहिये । प्रमादसे जो इसका तंतु अर्थात् नहरुआ वीचमेसे टूट जावे तो हाथसे टूटा और पाँवसे लूला कर देता है ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥

स्नायुरोगकी चिकित्सा ।

स्नेहस्वेदप्रलेपादि कर्म कुय्याद्य-
थेप्सितम् । रामठं शीततोयेन पी-
तं तन्तुकरोगहत ॥ ५ ॥

स्नायुकरोगमे स्नेहन, स्वेदन और प्रलेपादि यथो-
चित चिकित्सा करनी चाहिये । हींगको शीतलज-
लमे पीसकर पान करनेसे स्नायुकरोग नष्ट होता है ॥५

मञ्जिष्ठादिप्रलेप ।

मञ्जिष्ठयष्टीमधुकं पयस्या प्रपौण्डरी-
कं सह पद्मकेन । सौगन्धिकं चेलि
सुखं प्रलेपः शस्तो विसर्पे त्वथ तन्तु-
रोगे ॥ ६ ॥

मजीठ, मुलेठी, काकोली, पुंडेरिया, पद्माख और
सुगंधित तृण इन सबको एकत्र पीसकर लेप करनेसे
विसर्परोग और स्नायुरोग शमन होता है ॥ ६ ॥

स्वेदात्स्नायुकमत्युग्रं भेकः काञ्जिक-
साधितः । तद्वद्वम्बूलजं बीजं पिष्टं
हन्ति प्रलेपनात् ॥ ७ ॥

मेडकको काँजीमे पकाकर उसका स्वेद अर्थात्
वफारा देनेसे अथवा ववूरके बीजोको पीसकर लेप
करनेसे स्नायुरोग जांत होता है ॥ ७ ॥

गव्यं सर्पिस्त्र्यहं पीत्वा निर्गुण्डीस्व-
रसं त्र्यहम् । पिबेत्स्नायुकमत्युग्रं ह-
न्त्यवश्यं न संशयः ॥ ८ ॥

प्रथम गायके बीको तीन दिनतक पानकर पश्चात्
निर्गुण्डीके स्वरसको तीन दिनतक पान करनेसे अत्यंत
उग्र स्नायुरोग निश्चय आरोग्य होता है ॥ ८ ॥

मूलं सुषव्या हिमवारिपिष्टं पानादि-
कं तन्तुकरोगमुग्रम् । शान्तिं नये-
त्सत्रणमाशु पुंसां गन्धर्वगन्धेन घृ-
तेन पीतम् ॥ ९ ॥

कलौजीकी जडको शीतल जलमे पीसकर पान
करनेसे स्नायुरोग नष्ट होता है । अश्वगन्धाघृत अथवा
अमगन्धके द्वारा पकाये हुए घृतको पान करनेसे व्रण-
सहित स्नायुरोग नष्ट होता है ॥ ९ ॥

अतिविषमुस्तकभाङ्गीविथौषधिपिप्प-
लीविभीतकीनाम् । चूर्णमिदं तन्तुघ्नं
पुंसासुष्णेन वारिणा पीतम् ॥ १० ॥

अतीस, नागरमोथा, भारंगी, सोंठ, पीपल और
वहेडा इनका चूर्ण करके गरम जलके साथ पान
करनेसे स्नायुरोग नष्ट होता है ॥ १० ॥

शिशुमूलदलैः पिष्टैः काञ्जिकेन ससै-
न्धवैः । लेपनं स्नायुकव्याधेः शमनं
परमुच्यते ॥ ११ ॥

सहिजनेकी जड और पत्तोको काँजीमे पीसकर
सैधानमक डाल कर लेप करनेसे स्नायुरोग शमन
होता है ॥ ११ ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां स्नायुरोगाधि-
कार समाप्त ॥ ६२ ॥

अथ मसूरिकारोगाधिकार ।

कट्फल्लवणक्षारविरुद्धाध्यशनाश-
नैः । दुष्टनिष्पावशाकाद्यैः प्रदुष्टपव-
नोदकैः ॥ १ ॥ क्रुद्धग्रहेक्षणाच्चापि
देहे दोषाः समुद्भवाः । जनयन्ति
शरीरेऽस्मिन् दुष्टरक्तेन सङ्गताः ॥
मसूराकृतिसंस्थानाः पिडकाः स्यु-
र्मसूरिकाः ॥ २ ॥

चरपरे, खट्टे, नमकीन, खारी, संयोगमान विरुद्ध
और भोजनपर भोजन, दुष्ट अन्न, निष्पाव (उडद
लोविया इत्यादि) शाकादिक पदार्थ, दूषित पवन
और दूषित जलको सेवन करनेसे, देहमे राहु
शनि आदि क्रूर ग्रहोकी दृष्टि पडनेसे, इत्यादि कार-
णोसे देहमे वातादिवेप कुपित होकर दुष्ट
रुधिरसे मिलकर मसूरके समान शरीरमे अनेक
फुंसियोको उत्पन्न करते है अतः इसको मसूरिका
कहते है ॥ १ ॥ २ ॥

मसूरिकाके पूर्वरूप ।

तासां पूर्वं ज्वरः कङ्कूर्गात्रभङ्गो-
ऽरतिर्भ्रमः । त्वचि शोथः सर्वैवर्ण्यो
नेत्ररागस्तथैव च ॥ ३ ॥

मसूरिकाके उत्पन्न होनेसे ज्वर, खुजली, शरीर-का दृटना, अरुचि, भ्रम, त्वचामें सूजन, विवर्णता और नेत्र लाल होते हैं ॥ ३ ॥

वातजमसूरिकाके लक्षण ।

स्फोटा रूक्षारुणाः कृष्णास्तीव्रवेदन-यान्विताः । कठिनाश्चिरपाकाश्च भ-वन्त्यनिलसम्भवाः ॥ ४ ॥ सन्ध्य-स्थिपर्वणां भेदः कासः कम्पोऽरतिः क्लमः ॥ शोषस्ताल्वोष्ठजिह्वानां तृष्णा चारुचिसंयुताः ॥ ५ ॥

वातजमसूरिकाकी फुंसियें काली, लाल, रूखी और तीक्ष्ण पीडायुक्त होती है तथा कठिन और बहुत कालमें पकती हैं । सधि, हड्डी और गॉठोंमें तोड़ने सरीखी पीडा होती है । तथा खाँसी, कम्प, मनमें व्याकुलता, ग्लानि हो, तालु, होठ और जीभ-में खुश्की होना एवं तृषा और अरुचि होना यह सब वातजमसूरिकाके लक्षण जानने ॥ ४ ॥ ५ ॥

पित्तजमसूरिकाके लक्षण ।

रक्ताः पीताः सिताः स्फोटाः सदा-हास्तीव्रवेदनाः । भवन्त्यचिरपाकाश्च पित्तकोपसमुद्भवाः । विड्भेदश्चाङ्ग-मर्दश्च तृष्णारत्यरुची तथा । मुखपाकोऽक्षिपाकश्च ज्वरस्तीव्रः सु-दारुणः ॥ ६ ॥

पित्तजमसूरिकाकी फुंसियें लाल, पीली और सफेद रंगकी होती है । उनमें जलन और अत्यन्त पीडा होती है, शीघ्र पकती है, मल पतला उतरता है, शरीरमें तोड़ने सरीखी पीडा, दाह, तृषा बेचैनी और अरुचि होती है, मुख और नेत्र पकजाते हैं तथा अत्यन्त तीव्र ज्वर होता है ॥ ६ ॥

रक्तजमसूरिकाके लक्षण ।

रक्तजायां भवन्त्येते विकाराः पित्त-लक्षणाः ॥ ७ ॥

रक्तजमसूरिकामें पित्तजमसूरिकाके सम्पूर्ण लक्षण होते हैं ॥ ७ ॥

कफजमसूरिकाके लक्षण ।

कफप्रसेकः स्तैयित्वं शिरोरुम् ना-त्रगौरवन । हृष्टासारुचितन्द्रार्त्तिर्नि-द्रालस्यसमन्विताः ॥ ८ ॥ श्वेताः स्निग्धा भृशं स्थूलाः कंदूरा मन्दवेद-नाः ॥ असूरिकाः कफोत्थाश्च चिर-पाकाः प्रकीर्त्तिताः ॥ ९ ॥

कफजमसूरिकामें मुखमें पानी गिरता है, शरीरमें गीलापन, शिरमें पीडा, देहका भारी होना, उबकाई, अरुचि, तन्द्रा, निन्द्रा और आलस्य होना, फुंसियों सफेद, चिकनी, मोटी, खुजलीयुक्त और कम पीडा-वाली होती है और बहुतकालमें पकती है ॥ ८ ॥ ९ ॥

त्रिदोषजमसूरिकाके लक्षण ।

नीलाश्चिपिटविस्तीर्णा मध्ये निद्रा महारुजाः । चिरपाकाः पूतिस्त्रावाः प्रभूताः सर्वदोषजाः ॥ १० ॥

सन्निपातज मसूरिकाकी फुंसियें-नीली, चपटी, विस्तीर्ण और बीचमें नीची होती है, उनमें अत्यन्त वेदना होती है, वे बहुत कालमें पकती है, दुर्गन्धित रास्य बहती है तथा बहुतसी होती है ॥ १० ॥

चर्मपिडिका ।

कण्ठरोधोऽरुचिस्तन्द्राप्रलापारति-सङ्गताः । दुश्चिकित्स्याः लसुदिष्टाः पिडिकाश्चर्मसंजिताः ॥ ११ ॥

जिनमें कण्ठका अवरोध, अरुचि, तन्द्रा, प्रलाप और बेकली हो तथा जिनकी चिकित्सा न हो उनके उनको चर्मपिडिका कहते हैं ॥ ११ ॥

रोमान्तिक ।

रोमरूपोन्नतिसमा लोहिताः कफ-पित्तजाः । कासारोचकसंयुक्ता रो-मान्त्यो ज्वरपूर्विकाः ॥ १२ ॥

जो मसूरिका रोम कूपांके समान ऊची और लाल हो जिसमें खोंसी और अरुचि हो तथा जिसमें पहिले ज्वर हो वह कफपित्तोद्भव रोमातिका मसूरिका जाननी ॥ १२ ॥

सप्तधातुगतमसूरिकाके लक्षण ।

तोयबुद्बुदसंकाशास्त्वग्गताश्च मसूरिकाः । स्वल्पदोषाः प्रजायन्ते भिन्नास्तोयं स्रवन्ति च ॥ १३ ॥ रक्तस्था लोहिताकाराः शीघ्रपाकास्तनुत्वचः । साध्या नात्यर्थदुष्टाश्च भिन्ना रक्तं स्रवन्ति च ॥ १४ ॥

जो मसूरिका पानीके बबूलेके समान आकारवाली हो, जिनमें कूटनेसे पानी बहे वह रसगतमसूरिका जाननी, इसमें दोष स्वरूप होते हैं इस कारण वह त्वग्गतश्च जाननी । रक्तगत मसूरिका-लोहितवर्ण, शीघ्र पकनेवाली, पतली त्वचावाली और फोडनेपर उसमेंसे रुधिर निकलता है, रुधिरमें रहनेवाली मसूरिका जो अत्यन्त दुष्ट रुधिरवाली न हो तो साध्य और अत्यन्त दुष्ट रुधिरवाली हो तो कष्टसाध्य होती है ॥ १३ ॥ १४ ॥

मांसस्थाः काठिनाः स्निग्धाश्चिरपाका घनत्वचः । गात्रशूलारतिकृद्भ्रूणारुचिसमन्विताः ॥ १५ ॥

मासगत मसूरिका काठिन, चिकनी और बहुतकालमें पकती है, मोटी त्वचावाली तथा शरीरमें पीडा, बेकली, खुजली, तृपा और अरुचि होती है ॥ १५ ॥

भेदोजा मण्डलाकारा मृदवः किञ्चिदुन्नताः । घोरज्वरपरीताश्च स्थूलाः स्निग्धाः सवेदनाः ॥ १६ ॥ सम्मोहारतिसन्तापाः कश्चिदाभ्यो विनिरतरेत् ॥ १७ ॥ क्षुद्रा गात्रसमा रूक्षाश्चिपिटाः किञ्चिदुन्नताः । मज्जोत्था भृशसंमोहवेदनाऽरतिसंयुताः ॥ १८ ॥

छिन्दन्ति मर्मधामानि प्राणानाशु

* सप्तधातु कहनेसे रसादि सात धातुओंका बोध होता है त्वचाका नहीं आश्रय मक्का त्वचा ही है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप बाहर जाकर ही होता है इससे त्वग्गतसे सप्तधातु समझना

हरन्ति च । भ्रमरेणैव विद्वानि कुर्वन्त्यस्थीनि सर्वतः ॥ १९ ॥

भेदगत मसूरिका मण्डलके समान गोल, नरम, कुछ ऊपरको उठी हुई, घोर ज्वरयुक्त, मोटी, चिकनी, पीडायुक्त तथा वेहोसी, व्याकुलता और सन्तापसे युक्त होती है । इस मसूरिकासे प्रायः कोई ही रोगी बचता है । अस्थि और मज्जागत मसूरिका क्षुद्र, शरीरके वर्णके समान रूखी, चिपटी, कुछ ऊपरको उठी हुई, ये अस्थिगतके लक्षण हैं । तथा अत्यन्त मोह, वेदना और व्याकुलतासे युक्त होती है और उन मर्मस्थानोंको छेद करके शीघ्र ही प्राणोंका नाश करती है । इसके होनेसे हड्डियोंमें भौरेके काटने सरीखी पीडा होती है ॥ १६-१९ ॥

पक्वाभाः पिडकाः स्निग्धाः सूक्ष्माश्चात्यर्थवेदनाः । स्तैमित्यारतिसंमोहदाहोन्मादसमन्विताः ॥ २० ॥

शुक्रजायां मसूर्यान्तु लक्षणानि भवन्ति च । निर्दिष्टं केवलं चिह्नं दृश्यते न हि जीवितम् ॥ २१ ॥

शुक्रगत मसूरिकाकी फुडिये पकनेके समान होती है, किन्तु पकती नहीं है तथा चिकनी, बहुत छोटी, अत्यन्त वेदनावाली, शरीरमें जडता, बेचैनी, मोह, दाह और उन्मादयुक्त होती है । यह शुक्रगत मसूरिका केवल लक्षण जाननेके लिये कही है, किन्तु इसकी चिकित्सा करनी योग्य नहीं है । क्योंकि इस मसूरिकासे कभी रोगी बचता नहीं देखा जाता । ॥ २० ॥ २१ ॥

दोषमिश्रास्तु सतैता द्रष्टव्या दोषलक्षणैः ॥ २२ ॥

दोषके विना रसादिकका दुष्ट होना सम्भव नहीं इस कारण यह सातों प्रकारकी मसूरिका दोषोंके विना नहीं होती है । इन सातों प्रकारकी मसूरिकामें उन २ दोषोंके लक्षण ऊपरके दोषोंके सम्बन्धसे जानने ॥ २२ ॥

साध्यासाध्यविचार ।

त्वग्गताः रक्तजाश्चैव पित्तजाः श्लेष्म-

* इसका अर्थ इसप्रकार समझना कि रसादि विद्वत सात धातुओंमें दोष उत्पन्न होकर त्वग्गत ही प्रत्यक्ष होते हैं ।

जास्तथा । एता विनापि क्रियया
प्रशाम्यन्ति शरीरिणासु ॥ २३ ॥

रसगत, रक्तगत, पित्तज, कफज और पित्तक-
फज ये मसूरिका सुखसाध्य है । ये मसूरिका
विना चिकित्साके भी शांत हो जाती है ॥ २३ ॥

वातजा वातपित्तोत्थाः श्लेष्मवातकृ-
ताश्च याः । कृच्छ्रसाध्यमतास्तस्मा-
द्यत्नादेता उपाचरेत् ॥ २४ ॥

वातज, वात और पित्त दोनोसे उत्पन्न हुई और
वात तथा कफसे उत्पन्न हुई मसूरिका कष्टसाध्य हैं । इस
कारण इनकी यत्नपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिये
॥ २४ ॥

असाध्याः सन्निपातोत्थास्तासां व-
क्ष्यामि लक्षणम् । प्रवालसदृशाः
काश्चिक्काश्चिज्जंबूफलोपमाः ॥ २५ ॥
लोहजालसमाः काश्चिदलसीफलस-
न्निभाः । आसां बहुविधा वर्णा जा-
यन्ते दोषभेदतः ॥ २६ ॥

सन्निपातज मसूरिका असाध्य है, अब उसके
लक्षण कहता हूँ । इस मसूरिकाकी फुंसी कोई मूंगेके
समान लाल, कोई जामुनके समान रंगवाली, कोई
लोहेकी जालीके समान और कोई अलसीके फलके
समान रंगवाली होती है, इसके सिवा दोषोंके भेदसे
और भी अनेक रंगकी होती है ॥ २५॥२६ ॥

कासो हिक्का प्रमोहश्च ज्वरस्तीव्रः
सुदारुणः । प्रलापश्चारतिर्मूर्च्छा तृ-
ष्णा दाहो विघूर्णता ॥ २७ ॥ मुखेन
प्रस्रवेद्रेक्तं तथा घ्राणेन चक्षुषा ।
कण्ठे छुर्धुरकं कृत्वा श्वसित्यत्यर्थदा-
रुणम् ॥ २८ ॥ मसूरिकाभिभूतस्य
यस्यैतानि भिषग्वरः । लक्षणानीह
दृश्यन्ते न दद्यात्तत्र भेषजम् ॥ २९ ॥

जिस मसूरिकाके रोगीको खाँसी, हिचकी,
बेहोशी, दारुण तीव्रज्वर, प्रलाप, बेचैनी, मूर्छा,
तृष्णा, दाह, विघूर्णता (घूमनी), मुख, नासिका और
नेत्रोंके द्वारा रुधिरका गिरना, कण्ठमें घुरघुर शब्द-
का होना और दारुण श्वास ये सब लक्षण हो तो
उसको वैद्य कदापि औषधि न देवे ॥२७॥२८॥२९॥

मसूरिकाका अरिष्ट ।

मसूरिकाभिभूतो यो भृशं घ्राणेन
निःश्वसेत् । स ध्रुवं त्यजति प्राणांस्तृ-
षार्त्तो वायुदूषितः ॥ ३० ॥

मसूरिकारोगसे पीडित जो मनुष्य नासिकाके
द्वारा श्वास लेंवे तथा अत्यन्त तृषासे पीडित हो और
अपतानक आदि वातव्याधिवाला हो तो वह रोगी
तत्काल मर जाता है ॥ ३० ॥

मसूरिकान्ते शोथः स्यात्कूर्परे मणि-
बन्धके । तथासफलके वापि दुश्चि-
कित्स्यः सुदारुणः ॥ ३१ ॥

मसूरिकारोगके आरोग्य होनेपर हाथकी कोहनी-
के ऊपर अथवा पहुँचेपर वा कन्धोंके ऊपर अत्यन्त
दारुण सूजन हो तो उसको कष्टसाध्य जानना यह
अत्यन्त दारुण कष्टसाध्य अथवा असाध्य है ॥३१॥

अथान्यग्रन्थान्तरात् ।

द्वित्रिलक्षणसंयुक्तो द्वन्द्वोपद्रवसंयु-
तः । द्वन्द्वजास्तु त्रयो ज्ञेया मनुष्या-
णां मसूरिकाः ॥ ३२ ॥

जिसमें दो दोषोंके लक्षण अथवा तीनों दोषोंके
लक्षण मिलते हो और जिसमें दो दोषोंके अथवा
तीनों दोषोंके उपद्रव हो उसको द्वन्द्वज या त्रिदोषज
मसूरिका जानना ॥ ३२ ॥

मसूरिकाका अन्यभेद ।

कफवातादिसंभूतः कोद्रवो नाम
संज्ञितः । लोके वदन्ति कक्षाकः
स पाकं न च गच्छति ॥ ३३ ॥

कफवातसे उत्पन्न होनेवाली, कोठेके समान
आकारवाली कोद्रवसंज्ञक जो मसूरिका होती है उसको
लोकमें कक्षाक कहते हैं । यह पाकको प्राप्त नहीं
होती ॥ ३३ ॥

श्वशूकवदङ्गेषु विध्यति च विशेष-
तः । सताहाद्वाद्दशाहाद्वा स्वस्थो भ-
वति मानवः ॥ ३४ ॥

यह मसूरिका जोके गुरूके समान विशेष करके
अंगोंको वेधती है इससे सात दिनमें या दश दिनमें
रोगी विना ही औषधिके स्वयं ही आरोग्य हो जाता
है ॥ ३४ ॥

मसूरिकाकी चिकित्सा ।

मसूरिकायां कुष्ठोक्ता प्रलेपादिक्रिया हिता । पित्तश्लेष्माविसर्पोक्ता क्रिया चात्र प्रशस्यते ॥ ३५ ॥

कुष्ठरोगमें जो लेपादि चिकित्सा कही है तथा पित्तकफजविसर्पपर जो चिकित्सा कही है वह सब क्रिया इस मसूरिकारोगमें भी प्रयोग करनी चाहिये ॥ ३५ ॥

धूप ।

वेणुत्वक् सुरसा लाक्षा कार्पासास्थिमसूरिकाः । यवपिष्टं विषं सर्पिवचा ब्राह्मी सुवर्चला । धूपनार्थं यथालाभं धूममेतत्प्रयोजयेत् ॥ ३६ ॥
आदावेतत्प्रयोक्तव्यं नश्यंत्याशु मसूरिकाः । न गृह्णन्ति विषं केचिद्यथालाभधृतेरिह ॥ ३७ ॥

बाँसकी छाल, तुलसी, लाख, कपासके बीज (विनौले), मसूर, जौका चून, अतीस, घी, वच, ब्राह्मी और हुलहुल इनमेंसे जितने पदार्थ मिल सकें उतने लेकर इनकी धूप बनावे । मसूरिकाके आदिमें इस धूपको देवे, इससे शीघ्र ही मसूरिका नष्ट हो जाती है । इसमें कोई कोई वैद्य अतीसको “यथा लाभ” नहीं लेना ऐसा अर्थ करते हैं ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

श्वेतचन्दनकल्केन हिलमोचाभवं रसम् । पिबेन्मसूरिकारम्भे नैर्म्बं वा केवलं रसम् ॥ ३८ ॥

हिलमोचा (हुलहुल)के रसमें सफेद चन्दनका कल्क डालकर मसूरिकाके आरम्भमें पान करनेसे अथवा केवल नीमका रस पान करनेसे मसूरिकाका भय नष्ट होता है ॥ ३८ ॥

विल्वपत्रसेनेव मूर्च्छितः पारदो रसः । हिलमोचरसं पीतं हन्ति माशिकसंयुतम् ॥ ३९ ॥ मसूरीं सर्वजां शीघ्रमस्थिजां सर्वदेहजाम् । वधने मरण प्रोक्तं स्तम्भने जीवनं मतम् ॥ ४० ॥

पारेको वेलके पत्तोंके रवरगमें मूर्च्छित करके हिलमोचिकाके रसमें गहव मिला पारेको पान करे । इससे सर्व शरीरगन मसूरिका, अस्थिगत और सर्व प्रकारकी मसूरिका नष्ट होती है । जो इस औषधिको सेवन करनेसे वमन हो जाय तो मृत्यु होती है और जो यह औषधि शरीरमें ठहर जाय तो शरीर आरोग्य हो जाता है ॥ ३९ ॥ ४० ॥

सर्वासां वमनं पूर्वं पटोलारिष्टवासकैः । कषायैश्च वचावत्सयष्ट्याह्वफलकल्कितैः ॥ ४१ ॥

सर्वप्रकारके मसूरिकारोगमें प्रथम पटोलपत्र, नीम और अड्डसेके काथके द्वारा वमन करावे । तथा वच, इन्द्रजौ, मुलैठी और त्रिफला इनके कल्कके द्वारा वमन करावे ॥ ४१ ॥

सक्षौद्रं पाययेद्ब्राह्मिरसं वा हिलमोचकम् । वान्तस्य रेचनं देयं शमनं वाऽबले नरे ॥ ४२ ॥

हिलमोचिकाके रसमें अथवा ब्राह्मिके रसमें गहव डालकर पान कराकर वमन करावे । वमन कराये हुए मनुष्यको विरेचन देवे और निर्बल मनुष्यको शमनकारक औषधि देवे ॥ ४२ ॥

उभाभ्यां हतदोषस्य विशुष्यन्ति मसूरिकाः । निर्विकाराश्चाल्पपूयाः पच्यन्ते चाल्पवेदनाः ॥ ४३ ॥

वमन और विरेचनके द्वारा दोषहरण हो जाने पर मसूरिका अच्छे प्रकार सूख जाती है तथा विकाररहित होकर अल्पराधवाली और अल्पपीडायुक्त होकर पकती है ॥ ४३ ॥

वाणीरबिल्वजनितं काथं पच्युषितमुत्तये दिवसे । चैत्रस्य पापरोगं पिबतां न भवेद्द्रुतं चैतत् ॥ ४४ ॥

जलेवत और वेलका काथ बनाकर बासी करके उत्तम दिनमें पान करनेसे तत्काल पापरोग (मसूरिका) नष्ट होती है ॥ ४४ ॥

नारीणां वामपादस्थं नराणामपसव्यगम् । पापरोगं त्यजेद्दूराच्छिरास्थिविनिवारणम् ॥ ४५ ॥

स्त्रियोंके वामपादगत और पुरुषोंके दक्षिणपादगत तथा गिरा और अस्थिगत ऐसा मसूरिकारोग असाध्य है, अतएव इसको दूरसे त्यागदेना चाहिये ॥ ४५ ॥

चैत्रसितभूतदिने रक्तपताका स्नुही-
भवने । धवलितकलसे न्यस्ता पाप-
रुजो दूरतो धत्ते ॥ ४६ ॥

चैत्रशुक्ला त्रयोदशीके दिन घरमे थूहरके वृक्षके ऊपर सफेद कलश स्थापन करे और उसपर लाल पताका धारण करे इससे शीघ्र ही पापरोग नष्ट होता है ॥ ४६ ॥

पटोलसारिवामुस्तं पाठा कटुकरोहि-
णी । खदिरः पिचुमन्दश्च बलाधा-
त्रीविकङ्कतम् । एषां कषायपानं तु
हन्ति वातमसूरिकाम् ॥ ४७ ॥

पटोलपत्र, सारिवा, नागरमोथा, पाठ, कुटकी, खैर, नीम, खिरैटी, आमले और कटाई इनके काथ-
को पान करनेसे वातजमसूरिका नष्ट होती है ॥ ४७ ॥

द्विपञ्चमूलं रास्ना च धात्र्युशीरं दुरा-
लभा । सामृतं धान्यकं मुस्तं जये-
द्रातमसूरिकाम् ॥ ४८ ॥

दशमूल, रायसन, आमले, खस, धमासा, गिलोय, धनियाँ और नागरमोथा, इनका काथ बनाकर पान करनेसे वातजमसूरिकारोग नष्ट होता है ॥ ४८ ॥

न्यग्रोधप्लक्षमञ्जिष्ठाशिरीषोदुम्बर-
त्वचाम् । ससर्पिष्कं मसूर्यान्तु वा-
तजायां प्रलेपनम् ॥ ४९ ॥

वड, पाखर, मजीठ, गिरस और गूलरकी छाल इनको एकत्र पीसकर घी मिला कर लेप करनेसे वातकी मसूरिका नष्ट होती है ॥ ४९ ॥

गुडूची मधुकं रास्नां पञ्चमूलं कनिष्ठ-
कम् । चन्दनं काश्मर्यफलं बलामू-
लं विकङ्कतम् । पाककाले मसूर्यान्तु
वातजायां प्रयोजयेत् ॥ ५० ॥

गिलोय, मुलैठी, रायसन, लघुपञ्चमूल, चन्दन, कुम्भेकके फल, खिरैटीकी जड़ और कटाइ इन औषधि-

योंका काथ बनाकर वातजनित मसूरिकामे पाकके समय सेवन करे ॥ ५० ॥

गुडूची मधुकं द्राक्षा मोरटं दाडिमैः
सह । पाककाले प्रदातव्यं भेषजं गु-
डसंयुतम् ॥ ५१ ॥ तेन पाकं ब्रज-
त्याशु न च वायुः प्रकुप्यति ॥ ५२ ॥

गिलोय, मुलैठी, दाख, क्षीरमोरट और अनार इ-
नका कलरु बनाकर गुड मिलाकर मसूरिकाके पकनेके समय सेवन करे। इससे शीघ्र ही मसूरिका पकजाती है और वायुका प्रकोप भी नहीं होता है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥

लिह्याद्वदरचूर्णन्तु पाचनार्थं गुडेन
तु । कफवातकृतास्तेन पच्यन्ते च
मसूरिकाः ॥ ५३ ॥

वेरोका चूर्ण करके गुडमे मिलाकर मसूरिकाको पचानेके लिये देवे इससे कफवातजनित मसूरिका तत्काल पकजाती है ॥ ५३ ॥

शोधनं पित्तजायान्तु कार्य्यं वैद्येन
जानता । तत्रादौ तर्पणं कार्य्यं ला-
जचूर्णैः सशर्करैः ॥ ५४ ॥

पित्तजनितमसूरिकामें वैद्य शोधनकर्म करे। इसमे प्रथम खीलोंके चूर्णमें मिश्री मिलाकर तर्पण देवे ५४

भोजनं तित्तयूषैश्च प्रतुदानां रसेन
वा । भोजनं चाथवा कार्य्यं दुष्टव्रण-
विसर्पिणा ॥ ५५ ॥

मसूरिकारोगमें तित्त औषधियोंके यूपके साथ अथवा प्रतुदजातिके पक्षियोंके मांसरसके साथ अथवा दुष्टव्रण और विसर्परोगियोंके लिए जो अहार कहे हैं उनके साथ इसमे भोजन कराना चाहिये ५५

आदावेव मसूर्यान्तु पित्तजायां प्र-
योजयेत् ॥ ५६ ॥ निम्बपर्पटकं पाठा-
पटोलं चन्दनद्वयम् । वासा दुरालभा
धात्री व्योषं कटुकरोहिणी ॥ ५७ ॥
एतत्पलं शृतं शीतं मधुशर्करयान्वि-
तम् । मसूर्यान्तु प्रयोक्तव्यं पित्त-

जायां विजानता । दाहे ज्वरे विसर्पे
तु व्रणे पित्ताधिके तथा ॥ ५८ ॥ द्रा-
क्षाकाशमर्द्यखजूरपटोलारिष्टवास-
कैः । लाजामलकदुःस्पशैः सितायु-
क्तन्तु पैत्तिके ॥ ५९ ॥

पैत्तिकमसूरिकारोगमे प्रथम नीम, पित्तपापडा,
पाढ, पटोलपत्र, चन्दन, लालचन्दन, अड्डसा, धमा-
सा, आमले, त्रिकुटा और कुटकी इनके काथमे शहद
और मिश्री डालकर पान करे । पित्तजनित मसूरि-
कारोगमें दाह, ज्वर, विसर्प, व्रण और पित्तकी अधि-
कता हो तो दाख, कुम्भेर, खजूर, पटोलपत्र, नीम,
अड्डसा, खीलें, आमले और धमासा इनके काथमे
मिश्री डालकर पान करे ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥

शिरीषोदुम्बराश्वत्थपीलुन्यग्रोधव-
ल्कलैः । प्रलेपः सवृतः शीघ्रं व्रणवी-
सर्पदाहहा ॥ श्यामापर्पटकारिष्टचन्द-
नद्वयमूलकैः । धात्रीतिक्तवृषोशीर-
यासैश्च कथितं जलम् । पीतं मसू-
रिकां हन्ति पित्तजां दाहसंयुताम् ६०

शिरसकी छाल, गूलर, पीपल, पीलू और वड
इनकी छालको पीसकर घीमे मिलाकर लेप करनेसे
शीघ्रही व्रण, विसर्प और दाहरोग नष्ट होता है ।
अनंत मूल, पित्तपापडा, नीमकी छाल, चन्दन, लाल-
चन्दन, मूली, आमले, कुटकी, अड्डसा, खस और
जवासा इनका काथ वनाकर पान करनेसे दाहसंयुक्त
पैत्तिक मसूरिका नष्ट होती है ॥ ६० ॥

मोरटं काशमर्द्यफलं शृतशीतं सश-
र्करम् । लाजाचूर्णयुतं दद्यात्पित्तजा-
यान्तु पाचनम् ॥ ६१ ॥

क्षोरमोरट और कुम्भेरके फल इनका काथ वना-
कर शीतल करके मिश्री और खीलोका चूर्ण डालकर
पान करनेसे पैत्तिकमसूरिका नष्ट होती है ॥ ६१ ॥

दुरालभापर्पटकं पटोलं कटुरोहिणी ।
श्लैष्मिक्यां पित्तजायाश्च पाने नि-
क्वाथ्य दापयेत् ॥ ६२ ॥

धमासा, पित्तपापडा, पटोलपत्र और कुटकी इनका
काथ वनाकर श्लैष्मिक और पैत्तिक मसूरिकारोगमें
पान करे ॥ ६२ ॥

भूनिम्बमुस्तकं वासा त्रिफलेन्द्रयवा
सकम् । पिचुमन्दं पटोलश्च सक्षौद्रं
योजितं हितम् ॥ ६३ ॥

चिरायता, नागरमोथा, अड्डसा, त्रिफला, इन्द्रजौ,
जवासा, नीमकी छाल और पटोलपत्र इनका काथ
वनाकर शहद डालकर पान करनेसे मसूरिकारोग
शमन होता है ॥ ६३ ॥

खदिरारिष्टपत्रैश्च शिरीषोदुम्बराश्व-
त्था । कुय्याल्लेपं कफोत्थायां पित्तजा-
यामथापि वा ॥ ६४ ॥

खैर, नीमके पत्र, शिरसकी छाल और गूलरकी
छाल इन सबको एकत्र पीसकर कफजनित और पित्त-
जनित मसूरिकापर प्रलेप करना चाहिये ॥ ६४ ॥

वृषस्य स्वरसं दद्यात्क्षौद्रयुक्तं कफा-
त्मके ॥ ६५ ॥

कफजमसूरिकामे अड्डसेके स्वरसमें शहद मिला-
कर पान करे ॥ ६५ ॥

कफजायां मसूर्यान्तु कठिनायां वि-
शेषतः । पाचनाय प्रदातव्यं लेपनं
दधिसक्तुभिः ॥ ६६ ॥

कफजनित और विशेष करके कठिन मसूरिका-
ओमे वही और सक्तु मिलाकर पकानेके लिये लेप
करना चाहिये ॥ ६६ ॥

पटोलादिकाथ ।

पटोलं कुण्डलीमुस्तवृषधान्ययवास-
कैः । भूनिम्बनिम्बकटुकापर्पटैश्च
शृतं जलम् ॥ ६७ ॥ मसुरीं शमये-
दामां पक्वां चैव विशोधयेत् । नातः
परतरं किञ्चिद्विस्फोटज्वरशान्तये ६८

पटोलपत्र, गिलोय नागरमोथा, अड्डसा, धनियों,
जवासा, चिरायता, नीम कुटकी और पित्तपापडा

इनका काथ बनाकर पान करनेसे अपक्व मसूरिका-
रोग नष्ट होता है और पक्व मसूरिका शुद्ध होती है
इससे उत्तम अन्य औषधि विस्फोटज्वरको शांत
करनेवाली नहीं है ॥ ६७ ॥ ६८ ॥

पटोलमुस्ताऽरुणतंडुलीयकं पचेद्धरिः
द्रामलकलकसंयुतम् । मसूरिविस्फो-
टविसर्पशान्तये तदेव रोमान्तिवामि-
ज्वरापहम् ॥ ६९ ॥

पटोलपत्र, नागरमोथा, श्योनाक और चौलाईके
काथमें हलदी और आमलोंका कल्क डालकर पान
करनेसे मसूरिका, विस्फोटक, विसर्प, रोमांतिक,
वमन और ज्वर नष्ट होता है ॥ ६९ ॥

निम्बादिक्वाथ ।

निम्बपर्पटकं द्राक्षा पटोलं कटुरोहि-
णी । वासा दुरालभा धात्री चोशीरं
चन्दनद्वयम् ॥ ७० ॥ एष निम्बा-
दिकः काथः पीतः शर्करयान्वितः ।
मसूरीं सर्वजां हन्ति ज्वरवीसर्पस-
म्भवाम् । उत्थिता प्रविशेद्यातु पुन-
स्तां बाह्यतो नयेत् ॥ ७१ ॥

नीम, पित्तपापडा, दाख, पटोलपत्र, कुटकी, अड्डसा,
धमासा, आमले, खस, चन्दन और लालचन्दन
इनका काथ बनाकर उसमें खांड मिलाकर पान कर-
नेसे सर्व शरीरगत मसूरिकारोग, ज्वर, विसर्प और
उपपन्न होकर जो भीतरको चलीजाय ऐसी मसूरिका
फिर बाहरको निकल आती है ॥ ७० ॥ ७१ ॥

काश्चनारत्वचः काथस्ताप्यचूर्णाव-
चूर्णितः । निर्यन्थान्तः प्रविष्टान्तु
मसूरीं बाह्यतो नयेत् ॥ ७२ ॥

कचनारकी छालके काथमें सोनामाखीका चूर्ण
डालकर पान करनेसे भीतरको घुसीहुई मसूरिका
फिर निकल आती है ॥ ७२ ॥

पटोलमूलारुणतंडुलीयकं तथैव धा-
त्रीखदिरेण संयुतम् । पिबेज्जलेन क-

थितं सुशीतलं मसूरिकारोगविना-
शनं परम् ॥ ७३ ॥

पटोलपत्र, लालचौलाई वठी, आमले और खैर-
सार इनका काथ बनाकर शतिल करके पान करनेसे
मसूरिकारोग नष्ट होता है ॥ ७३ ॥

सुषवीपत्रनिर्यासं हरिद्राचूर्णसंयुत-
म् । रोमन्तीज्वरवीसर्पमसूरीशा-
न्तये पिबेत् ॥ ७४ ॥

करेलेके पत्तोंके स्वरसमें हलदीका चूर्ण डालकर
पान करनेसे रोमान्तिक ज्वर, विसर्प और मसूरिका-
रोग शमन होता है ॥ ७४ ॥

दुरालभापर्पटकं पटोलं कटुरोहिणी ।
श्लेष्मपित्तममूर्यान्तु काथमेषां प्रयो-
जयेत् ॥ ७५ ॥

धमासा, पित्तपापडा, पटोलपत्र और कुटकी इनका
काथ बनाकर कफपैतिक मसूरिकारोगमें पान करे ७५

रसं पूतिकरञ्जस्य चामलक्यारसं त-
था । पिबेत्सशर्कराक्षौद्रं शोफनुत्क-
फपैतिके ॥ ७६ ॥

दुर्गधकरजका रस और आमलोंका रस इनमें
मिश्री और शहद मिलाकर पान करनेसे सूजन तथा
कफपैतिक मसूरिका नष्ट होती है ॥ ७६ ॥

अमृतादिकषायन्तु जयेत्पित्तकफा-
त्मिकीम् । तथा शोणितसंसृष्टं जये-
च्छोणितमोक्षणैः ॥ ७७ ॥

अमृतादि काथको पान करनेसे पित्तकफजनित
मसूरिका दूर होती है। रक्तजमसूरिकाको रक्तमोक्ष-
णके द्वारा जीते ॥ ७७ ॥

साध्यासाध्यविचार ।

काश्चिद्विना प्रयत्नेन सिद्धन्त्याशु म-
सूरिकाः । कृष्णात्कृच्छ्रतराः का-
श्चित्काश्चित्सिध्यन्ति वा नवा । का-
श्चिन्नैव प्रसिध्यन्ति साध्यमानाः प्र-
यत्नतः ॥ ७८ ॥

बोर्ड मसूरिका बिना ही बत्तक सिद्ध होजाती है, कोई कष्टसाध्य होती है, कोई अत्यन्त कष्टसाध्य होती है, कोई आरोग्य होती है, कोई नहीं होती और कोई बहुतसे प्रयत्न करनेपर भी आरोग्य नहीं होती ॥७८॥

सौवीरेण तु संपिष्टं मानुलुङ्गस्य के-
शरम् । प्रलेपात्पाचयत्याशु दाहं
वापि नियच्छति ॥ ८१ ॥

विजोरनीबूके केजरों सौवीरनामक काँजोमे पीस कर लेप करनेसे मसूरिका पकजाती है और दाहभी दूर होजाती है ॥ ७९ ॥

पाददाहन्तु कुरुते पिठिका पादजा
भृशम् । तत्र सेकं प्रकुर्वीत बहुश-
रतंडुलांबुना ॥ ८० ॥

पाँवोमे उत्पन्न हुई पिठिका पावोमें दाहको करती है, पाँवोकी पिठिकाओमे वारंवार चावलोके जलके द्वारा सेचन करना चाहिये ॥ ८० ॥

पाककाले तु सर्वास्ता विशोपयति
भारुतः । तस्मात्संबृंहणं कार्यं न तु
पथ्यं विशोपणम् ॥ ८१ ॥

पकनेके समय सर्वप्रकारकी मसूरिकाओंको वायु सुखा देती है। इसकारण पाकके समय बृंहण (पुष्टि-कारक) पथ्य देना चाहिये और शोषरूप पथ्य नहीं देना चाहिये ॥ ८१ ॥

लिह्याच्च वादरं चूर्णं पाचनार्थं गुडेन
तु । अनेनाशु विपच्यन्ते वातपित्त-
कफात्मकाः ॥ ८२ ॥

वेरोके चूर्णको गुडमे मिलाकर सेवन करे। इससे वातपित्त और कफजनित मसूरिका शीघ्र पचजाती है ॥ ८२ ॥

शुलाध्मानपरीतरय कम्पयानस्य
वायुना । धन्वमांसरसाः शरता ईष-
त्सैन्धवसंयुताः ॥ ८३ ॥

शुल और आध्मानसे पीडित एव वायुमे कपित रोगीको जागलप्रदंके जीवोंके मांसके रससे किंचित् सैवान्धक डालकर पान करावे ॥ ८३ ॥

दाडिमाम्लरसैर्युक्ता यूपाः म्युस्त्व-
रुचौ हिताः ॥ ८४ ॥

अरुचिके होनेपर अनार और अम्लरस मिलाकर यूपको पीवे ॥ ८४ ॥

पिवेदम्भस्तपशीतं भावितं खदिरा-
सनैः ॥ ८५ ॥

खैर और विजयसार इनका फाय घनाकर शीतल करके पान करे ॥ ८५ ॥

शौचे वारि प्रयुजीत गायत्रिवहुवा-
रजम् ॥ ८६ ॥

खैर और लिसोडेके जलका शौच कर्मके लिये प्रयोग करे ॥ ८६ ॥

जातीपत्रसमञ्जिष्ठा दावीपूगफलं श-
मी । धात्रीफलं समधुकं कथितं म-
धुसंयुतम् ॥ मुखत्रणे कण्ठरोगे गंडू-
षार्थं प्रशस्यते ॥ ८७ ॥ अक्षणोः सेकं
प्रशंसन्ति गवेधुमधुकांबुना ॥ ८८ ॥

चमेलीके पत्ते, मजीठ, दारुहलदी, सुपरी, जंडी, आमले और मुलैठी इनके क्वाथमे गह्व डालकर मुख-त्रण और कण्ठरोगमे गण्डूपके लिये प्रयोग करे। गवे-धुधान्य और मुलैठी इनके काथसे नेत्रोंको सेचन करनेसे मसूरिकासे दृषित हुई आँखे आरोग्य होजाती है ॥८७॥८८॥

मधुकं त्रिफला मूर्वा दावीत्वङ्गनील-
मुत्पलम् । उशीरलोध्रमञ्जिष्ठालेपा-
श्चाच्योत्तेन हिताः ॥ ८९ ॥ नश्य-
न्त्यनेन दृग्जाता मसूर्यो न भवन्ति
च । प्रलेपमञ्जनं दद्याद्बहुवारस्य
वल्कलैः ॥ ९० ॥

मुलैठी, त्रिफला, मूर्वा, दारुहलदीकी छाल, नील कमल, खस, लोध और मजीठ इनका लेप करनेसे नेत्र आरोग्य हो जाते हैं और फिर मसूरिका नहीं होती। लिसोडेकी छालका लेप और अंजन लगानेसे नेत्ररोग आरोग्य होजाते हैं ॥ ८९ ॥ ९० ॥

पञ्चवल्कलचूर्णेन क्लिप्ता स्त्रावयती
यथा । दशाङ्गलेपचूर्णेन चूर्णिता शा-
न्तिमेति च ॥ ९१ ॥

मसूरिकामेंसे जो छेद बहता हो या स्रवता हो तो
पंचवल्कलका चूर्ण करके उसपर बुरकना चाहिये ।
अथवा दशांगलेपका चूर्ण डालनेसे भी मसूरिका
शांत होजाती है ॥ ९१ ॥

कृमिपातभयाच्चापि धूपयेत्सरला-
दिभिः । वेदनादाहशान्त्यर्थं स्रुता-
नां च विशुद्धये ॥ ९२ ॥ तथाष्टाङ्गा-
वलेहोऽत्र कवलश्चार्द्रकादिभिः ॥ ९३ ॥

मसूरिकामें कीड़े आदिके पडनेके भयसे सरल
आदि औषधियोंकी धूप देवे । वेदना और दाहको
शांत करनेके लिये तथा स्रवती हुई मसूरिकाको शुद्ध
करनेके लिये अष्टांगवलेह और अदरक आदिका
केवल प्रयोग करना चाहिये ॥ ९२ ॥ ९३ ॥

निशाद्वयोशीरशिरीषमुस्तकैः स-
लोध्रमद्रश्रियनागकेशरैः । सस्वेद-
विस्फोटविसर्पकुष्ठदौर्गन्ध्यरोमान्ति-
हरः प्रदेहः ॥ ९४ ॥

हलदी, दारुहलदी, खस, गिरस, नागरमोथा,
लोध, चन्दन और नागकेशर इनको एकत्र पीसकर
लेप करनेसे स्वेद, विस्फोटक, विसर्प, कुष्ठ, दुर्गन्ध
और रोमांतिक मसूरिका नष्ट होती है ॥ ९४ ॥

पञ्चतित्तं प्रयुञ्जीत पानाभ्यञ्जनभो-
जनैः । कुय्याद्ब्रणविधानश्च तैलादी-
न्वर्जयेच्चिरम् ॥ ९५ ॥

पान, अभ्यंजन और भोजनमें पंचतित्त काथको
प्रयोग करे । तथा फिर ब्रणके समान विधि करे और
तैलादिक पदार्थोंको बहुत दिनोतक त्याग देवे ॥ ९५ ॥

निम्बवर्षूरकाशोकं त्रिम्बीवेतसवल्क-
लम् । शृतशीतं प्रयोक्तव्यं स्त्रावप्र-
क्षालने सदा ॥ ९६ ॥

नीम, बवूर, अशोक, कन्दूरी और वेतकी छाल
इनका काथ बनाकर शृत शीतल करके स्त्रावको धोने-
के लिये प्रयोग करे ॥ ९६ ॥

जपहोमोपचारैश्च दानस्वस्त्ययना-
दिभिः । घण्टाकर्णं द्विजान् गाश्च
शिवं गौरीश्च पूजयेत् ॥ ९७ ॥

गीतलाकी शांतिके लिये जप, होम, दान, पुण्या-
ह्वाचन, इष्टपूजन, घंटाकर्ण, ब्राह्मण, गौ, महादेव
और गौरी इनकी पूजा करे ॥ ९७ ॥

अगदानि विषघ्नानिरत्नानि च भिष-
ग्वरः । धारयैद्वाचयेच्चापि वैनतेयस्य
संहिताम् ॥ ९८ ॥

श्रेष्ठवैद्य विषनाशक औषधि और रत्न इनको
धारण करावे और गरुडपुराणको बचवावे ॥ ९८ ॥

दावीघृत ।

कृत्वा दावीकषायश्च कल्कैरोभिः
पचेद्घृतम् । दशमूलीबलापथ्याकुष्ठ-
रास्नाविभीतकैः ॥ ९९ ॥ दावीत्व-
ग्रक्तमालेश्च समञ्जिष्ठैः सुपेषितैः ।
अपक्वाः पाचयत्याशु पक्वाश्चैव वि-
शोधयेत् ॥ क्षुद्रास्तु शमयत्येतत्से-
कादपि मसूरिकाः ॥ १०० ॥

दारुहलदीके काथमें दजमूल, खिरैटी, हरड, कूठ,
रायसन, बहेडा, दारुहलदीकी छाल, करंजकी छाल
और मजीठ इनके कल्कके द्वारा घृतको पकावे ।
इस घृतको सेचनादि कर्मोंमें प्रयोग करनेसे अपक्व
मसूरिका पक जाती है और पक होकर शुद्ध होती है
एव क्षुद्रमसूरिका भी इसके सेकरो नष्ट होजाती है
॥ ९९ ॥ १०० ॥

मसूरीषु प्रयुञ्जीत गौराद्यं पद्मकं
तथा । निम्बं शैरीषिकं वापि भिषक्
सर्वेषु कर्मसु ॥ १०१ ॥

मसूरिकारोगमें गौराघृत तथा पद्मकघृतको
प्रयोग करे । एव सम्पूर्ण कर्मोंमें नीम और गिर-
सको प्रयोग करे ॥ १०१ ॥

कूर्परादि भवे शोथे यत्नात्सिद्धिः प्र-
जायते । ब्रणशोथहरैर्योगैर्वातयोग-
हरैस्तथा ॥ १०२ ॥

मसूरिकामें कूर्परादिस्थानमें जी शोथ होजाता है उसमें व्रणशोथोक्त औषधियोंके द्वारा अथवा वातनाशक औषधियोंके द्वारा यत्नपूर्वक चिकित्सा करे क्योंकि इसमें यत्नसे सिद्धि होती है ॥ १०२ ॥

दुष्टव्रणेषु तेष्वेव जलौकाभिर्हरेद-
सृक् ॥ १०३ ॥

मसूरिकामें जो दुष्टव्रण होजाँय तो जलौकाके द्वारा रुधिरको हरण करे ॥ १०३ ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां मसूरिका-
निदानकिचित्साधिकार समाप्त ॥ ६५ ॥

अथ क्षुद्ररोगाधिकार ।



अजगल्लिकाके लक्षण ।

स्निग्धाः सवर्णा ग्रथिता नीरुजा क्षु-
द्रसन्निभाः । कफवातोत्थिता ज्ञेया
वालानामजगल्लिकाः ॥ १ ॥

जो फुन्सी-चिकनी शरीरके वर्णके समान वण-
वाली, गांठसी बंधी हुई, पीडारहित और मूँगके
समान बालकोंके उत्पन्न हो उनको अजगल्लिका
कहते हैं । यह वातकफोद्भव जाननी ॥ १ ॥

अजगल्लिकाकी चिकित्सा ।

तत्राजगल्लिकामामां जलौकाभिरुपा-
चरेत् । शुक्तिसौराष्ट्रिकाक्षारकल्कै-
श्चालेपयेन्मुहुः ॥ २ ॥

प्रथम जो अजगल्लिका अपक हो तो जोंकके
द्वारा रुधिर निकलवावे । फिर सीप, फिटकरी और
जवाखार इनके कल्कका बारम्बार लेप करे ॥ २ ॥

काठिनां क्षारयोगैश्च द्रावयेदजगल्लि-
काय । श्यामालाङ्गलिकापूर्वाकल्कै-

वापि विलेपयेत् ॥ पक्वां व्रणविधानेन
अथोक्तन प्रसाधयेत् ॥ ३ ॥

जो अजगल्लिकाकी फुन्सी कठिन हो तो क्षारके
द्वारा द्रवीभूत अर्थात् गलावे । तथा शारिवा कलि-
हारी और मूर्वा इनके कल्कका प्रलेप करे । आरै जो
अजगल्लिका पक जाय तो व्रणोक्त समस्त चिकित्सा
करे ॥ ३ ॥

विवृतापिडिकाके लक्षण ।

विवृतास्यां महादाहां पक्कोदुम्वरस-
न्निभाम् । प्रमण्डलां पित्तकृतां
विवृता नाम तां विदुः ॥ ४ ॥

जो फुन्सी फैलेमुखकी, अत्यन्त दाहयुक्त, पके
गूलरके समान और चारोंओर मण्डलाकार हो उस-
को पित्तोत्पन्न विवृता जाननी ॥ ४ ॥

इन्द्रवृद्धाके लक्षण ।

पद्मकर्णिकवन्मध्ये पिडिकाभिः समा-
चिताम् । इन्द्रवृद्धान्तु तां विद्याद्वा-
तपित्तोत्थितां भिषक् ॥ ५ ॥

प्रथम बीचमें एक बड़ी फुन्सी कमलकी कर्णिका
के समान उत्पन्न हो फिर उसके चारोंओर बहुतसी
छोटी छोटी फुन्सी उत्पन्न हों उसको वातपित्तोत्पन्न
इन्द्रवृद्धा कहते हैं ॥ ५ ॥

गर्दभिकाके लक्षण ।

मण्डलं वृतमुत्सन्नं सरत्तं पिडिका-
न्वितम् । रुजाकरिं गर्दभिकां तां
विद्याद्वातपित्तजाम् ॥ ६ ॥

जो फोडा मण्डलके समान गोल, ऊँचा, लाल
हो और जिसमें चारोंओर छोटी छोटी फुन्सी हों
तथा जिसमें अत्यन्त पीडा हो उसको वातपित्तोत्पन्न
गर्दभिका जाननी ॥ ६ ॥

पाषाणगर्दभके लक्षण ।

वातश्लेष्मसमुद्भूतः श्वयथुर्हनुसन्धि-
जः । स्थिरो मन्दरुजः स्निग्धो ज्ञेयः
पाषाणगर्दभः ॥ ७ ॥

वातकफसे ठोड़ीकी संधिमे मूजन उत्पन्न हो, वह मूजन कठिन, अल्पपीडाशुक्त और चिकनी हो तो इसको पापाणगर्दभ कहते है ॥ ७ ॥

पनसिकाके लक्षण ।

कर्णस्याभ्यन्तरे जातां पिडिकासुग्र-
वेदनाम् । स्थिरां पनसिकां तां तु
विद्यादन्तःप्रपाकिनीम् ॥ ८ ॥

काणके भीतर जो फुसी अत्यन्त पीडायुक्त और कठिन उत्पन्न हो उसको पनसिका कहते है । यह चारो ओरसे पकती है ॥ ८ ॥

जालगर्दभके लक्षण ।

विसर्पवत्सर्पति यः शोथस्तनुरपाक-
वान् । दाहज्वरकरः पित्तात्स ज्ञेयो
जालगर्दभः ॥ ९ ॥

विसर्पके समान फलनेवाली, पतली और पाकर-
हित जो मूजन हो उसके होनेसे शरीरमे दाह और ज्वर
होता है इसको पित्तोद्भव जालगर्दभ कहते है ॥ ९ ॥

इरिवेह्लिकाके लक्षण ।

पिडिकासुत्तमाङ्गस्थां वृत्तासुग्ररुजा-
करीम् । सर्वात्मिकां सर्वलिङ्गां जा-
नीयादिरिवेह्लिकाम् ॥ १० ॥

जो फुन्सी मस्तकमे गोल, उग्रपीडा और ज्वरस-
हित उत्पन्न हो तथा जिसमे त्रिदोषके लक्षण मिलते
हो उसको त्रिदोषोत्पन्न इरिवेह्लिका जानना ॥ १० ॥

कक्षाके लक्षण ।

बाहुपाश्र्वासकक्षेषु कृष्णस्फोटां स-
वेदनाम् । पित्तप्रकोपसंभूतां कक्षा-
मित्यभिनिर्दिशेत् ॥ ११ ॥

जो बाहु, पसली, कंधे और कोखमे काले रंगका
वेदनायुक्त फोडा उत्पन्न हो उसको पित्तोत्पन्न कक्षा
कहते है ॥ ११ ॥

गन्धनाम्रीके लक्षण ।

एकामेतादृशीं दृष्ट्वा पिटिकां स्फोट
सन्निभाम् । त्वग्गतां पित्तकोपेन ग-
न्धनाम्रीं प्रचक्षते ॥ १२ ॥

ऊपर कहे हुए बाहु आदिके स्थानोकी त्वचामें पिं-
त्तके प्रकोपसे काली और वेदनायुक्त फोडेके समान
जो एक फुन्सी उत्पन्न होती है उसको पित्तजन्य
गन्धनाम्री कहते है ॥ १२ ॥

विवृतापिडिकाकी चिकित्सा ।

विवृताभिन्द्रवृद्धां च गर्दभीं जाल-
गर्दभम् । इरिवेह्लीं गन्धनामां कक्षा-
विस्फोटकांस्तथा ॥ पित्तजस्य वि-
सर्पस्य क्रियया साधयेद्विषकू ॥ १३ ॥

विवृता, इन्द्रवृद्धा, गर्दभिका, जालगर्दभ, इरिवे-
ह्लिका, गन्धनामा, कक्षा और विस्फोटेक इन सबकी
चिकित्सा पित्तजविसर्पके समान करनी चाहिये ॥
॥ १३ ॥

रोपयेत्सर्पिषा पक्वान् सिद्धेन मधुरौ-
षधैः ॥ १४ ॥

मधुर औषधियोके कल्कके द्वारा घृतको सिद्ध करके
त्रणोको रोपण करनेके लिये प्रयोग करे ॥ १४ ॥

सुरदारुशिलाकुष्ठैः स्वेदयित्वा प्रले-
पयेत् । कफमारुतशोथघ्नो लेपः पा-
षाणगर्दभे ॥ परिपाकगतं भिस्त्वा त्र-
णवत्समुपाचरेत् । १५ ॥

देवदारु, मैनशिल और कूठ इनके द्वारा पापाण-
गर्दभनामक पिडिकाको स्वेदेत करके लेप करे तथा
कफ, वात, शोथनाशक औषधियोका प्रलेप करे ।
जब पक जाय तब उसको भेद कर त्रणके समान
चिकित्सा करे ॥ १५ ॥

नीलीपटोलयोर्मूलं जलापिष्टं घृतप्लु-
तम् । निहन्ति लेपनान्नूनं जालगर्द-
भजां रुजाम् ॥ १६ ॥

नीलकी जड और परवलकी जड़को जलमे पीस कर
घीमे मिलाकर लेप करनेसे जालगर्दभरोग दूर होता
है ॥ १६ ॥

अन्त्रालजीके लक्षण ।

यनामवक्रां पिटिकासुत्रतां परिम-
ण्डलाम् । अन्त्रालजीमल्पपूयां तां
विद्यात्कफवातजाम् ॥ १७ ॥

जो फुन्सी घन मुखरहित ऊँची मण्डलाकार और अल्पराधयुक्त हो उसको कफत्रातोत्पन्न अन्त्रालजी या अन्धालजी कहते हैं ॥ १७ ॥

यवप्रख्याके लक्षण ।

यवाकारा सुकाठिना ग्रथिता मांस-
संश्रिता । पिटिका श्लेष्मवाताभ्यां
यवप्रख्येति सोच्यते ॥ १८ ॥

जो फुन्सी जौके आकारवाली काठिन गठीली और मांसमे स्थित हो उसको वातकफोत्पन्न यवप्रख्या कहते हैं ॥ १८ ॥

कच्छपिकाके लक्षण ।

ग्रथिताः पञ्च वा षड्वा दारुणाः क-
च्छपोन्नताः । कफानिलाभ्यां पिटि-
का ज्ञेया कच्छपिका बुधैः ॥ १९ ॥

पाँच या छः फुन्सी गठीली, अत्यन्त दारुण और कछुवेके समान ऊपरको उठीहुई एक जगह उत्पन्न हो तो उसको कफत्रातोत्पन्न कच्छपिका कहते हैं ॥ १९ ॥

अन्त्रालजीकी चिकित्सा ।

अलर्जी यवप्रख्याश्च पनसीं कच्छपीं
तथा । पाषाणगर्दभश्चैव पूर्वं स्वेदैरु-
पाचरेत् ॥ २० ॥

अन्त्रालजी, यवप्रख्या, पनसी, कच्छपिका और पाषाणगर्दभ इन सबमे प्रथम स्वेदके द्वारा उपचार करे ॥ २० ॥

मनःशिलादेवदारुकुष्ठकल्कैः प्रलेप-
येत् । पक्वान्त्रणविधानेन यथोक्तेन
प्रसाधयेत् ॥ २१ ॥

मनशिल, देवदारु और कूठ इनका कल्क बनाकर प्रलेप करे और जब ये पक् जायें तब त्रणके समान इनकी चिकित्सा करे ॥ २१ ॥

अनुशयके लक्षण ।

गम्भीरामल्पसंरम्भां सवर्णासुपारि-
स्थिताम् । पादस्यानुशयीं तान्तु
विद्यादन्तःप्रपाकिनीम् ॥ २२ ॥

जो पिडिका पाँवमे उत्पन्न हो और भीतर ही पके वह अत्यन्त गम्भीर, किंचित् सूजनयुक्त और शरीरके वर्णके समान उसका रंग हो तो उसको अनुशयी कहते हैं ॥ २२ ॥

अनुशयीकी चिकित्सा ।

श्लेष्मविद्रुधिकल्केन जयेदनुशयीं
भिषक् ॥ २३ ॥

कफविद्रुधिपर जो औषधियोंका कल्क आदि कहा है वही इस अनुशयीपर प्रयोग करना चाहिये ॥ २३ ॥

विदारिकाके लक्षण ।

विदारीकन्दवद्वृत्तां कक्षावद्धक्षणस-
न्धिषु । विदारिकामिति वदेत्सर्वजां
सर्वलक्षणाम् ॥ २४ ॥

काँख अथवा वक्षणसन्धिमें विदारीकन्दके समान वृत्ती हुई, गोल, लाल, सम्पूर्ण दोपोंसे उत्पन्न होनेवाली और सम्पूर्ण दोपोंके लक्षणासे युक्त जो फुन्सी हो उसको विदारिका कहते हैं ॥ २४ ॥

विदारिकाकी चिकित्सा ।

रक्तावसेकैर्बहुभिः स्वेदनैरपतर्पणैः ।
जयेद्विदारिकां लैपैः शिशुदेवद्रुमो-
द्भवैः ॥ नगपृश्निकवर्षाभूबिल्वमूलैर-
थापि वा ॥ २५ ॥

विदारिका रोगमें वारंवार रक्तमोक्षण, स्वेदप्रदान, लंघन तथा सहिजने और देवदारुको पीस कर प्रलेप करे अथवा पर्वतीमैत्रफल, पुनर्नवा और वेलकी जड़ इनका प्रलेप करे ॥ २५ ॥

पक्वां विदार्य्य शस्त्रेण पटोलपिचुम-
न्दयोः । कल्केन तिलयुक्तेन स-
र्पिर्मिश्रेण लेपयेत् ॥ २६ ॥ बद्धा
च क्षीरवृक्षस्य कषायैः खदिरस्य च ।
व्रणं प्रक्षालयेच्छुद्धां ततस्तां रोपये-
त्पुनः ॥ रोपणार्थं हितं तैलं कषाय-
मधुरैः शृतम् ॥ २७ ॥

पक्कविदारीको शस्त्रसे चीर कर पटोलपत्र और नीम इनके कल्कमे तिल और घी मिला कर व्रणमें

भर देवे और ऊपरसे उसको बाँव देवे, फिर क्षीरवृ-
क्षाके और खैरके काथसे उस व्रणको धोवे । जब व्रण
शुद्ध होजाय तब व्रण भरनेकी चिकित्सा करे ।
मधुर औषधियोंके काथके द्वारा तेलको पकाकर उस
तेलको व्रणपर लगावे ॥ २६ ॥ २७ ॥

कच्छपिकां पनसिकामनेन विधिना
भिषक् । साधयेत्कठिनानन्याञ्छो-
थान्दोषसमुद्भवान् ॥ २८ ॥

कच्छपिका और पनसिकाकी भी इसी प्रकार
चिकित्सा करे । एवं अन्यान्य कठिन सूजनपर भी
इसी प्रकार चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २८ ॥

शर्कराके सम्प्राप्ति लक्षण ।

प्राप्य मांसं शिरां स्नायुं श्लेष्ममेद-
स्तथाऽनिलः । ग्रन्थिं करोत्यसौ भि-
त्रो मधुसर्पिर्वसानिभम् ॥ २९ ॥
स्रवत्या स्नावन्निलस्तत्र वृद्धिं गतः
पुनः । मांसं विशोष्य ग्रथितां शर्क-
राञ्जनयत्यतः ॥ ३० ॥

कफ,मेदा और वायु ये तीनों जोष मांस, स्नायुमे जा-
कर गाँठको उत्पन्न करते हैं । जब वह गाँठ फूटती है तब
उसमेंसे गह्व, बी और चर्बीके समान राध बहती
है फिर उसमें वायु बढकर मांसको सुखाकर अनेक
गाँठ उत्पन्न कर देती है उसको शर्करा कहते है ॥
॥ २९ ॥ ३० ॥

शर्करारुदके लक्षण ।

दुर्गन्धिक्लिन्नमत्यर्थं नानावर्णं ततः
शिराः । स्रवन्ति रक्तं सहसा तं वि-
न्द्याच्छर्करारुदम् ॥ ३१ ॥

शर्करा होनेके पश्चात् नाडियोंके द्वारा दुर्गन्धित,
क्लिन्न, विविधवर्णका रक्त बहता है उसको शर्करारुद
कहते है, इसकी गाँठे रेतके समान होती है ॥ ३१ ॥

शर्करारुदकी चिकित्सा ।

मेदोऽर्बुदविधानेन साधयेच्छर्करारु-
दम् ॥ ३२ ॥ कच्छाविचर्चिकापामा-
लसकाः कुष्ठालिङ्गकाः । कुष्ठरोगो-
क्तविधिना एतांस्तद्द्रुपाचरेत् ॥ ३३ ॥

शर्करारुदकी चिकित्सा मेदोऽर्बुदके समान करनी
चाहिये । कक्षा, विचर्चिका, पामा, लसका और जिन
रोगोंमें कुष्ठरोगोंके लक्षण मिलते हो उन सबकी कुष्ठ
रोगके समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

लेपश्च शस्यते सिक्थनात्ताह्वगौर-
सर्षपैः । वचादावीसर्षपैर्वा तैलं वा
नक्तमालजम् ॥ सारतैलमथाभ्यङ्गं
कुर्वीत कटुकैः शृतम् ॥ ३४ ॥

मोम, नौफ और सफेद सरसो इनको पीसकर
लेप करे । अथवा वच, दारुहलदी और सरसो
इनको पीसकर लेप करे । या करंजके तेलका लेप करे ।
अथवा कडवी औषधियोंके द्वारा सिद्ध क्रिये हुए सार
तेलकी मालिश करे ॥ ३४ ॥

जन्तुमणिका निदान ।

सममुत्सन्नमरुजं मण्डलं कफरक्तजम् ।
सहजं लक्ष्म चैकेषां लक्ष्यो जन्तुम-
णिस्तु सः ॥ ३५ ॥

शरीरके समान वर्णवाला, पीडारहित, मण्डला-
कार और गोल ऐसा जन्मसे ही मनुष्योंके शरीरमें
जो चिह्न हो उसको जन्तुमणि कहते हैं । यह कफ-
रक्तेसे होता है । कितने बड़े जन्तुमणिको लक्ष्य
(लहसन या लहसा) कहते हैं ॥ ३५ ॥

माषके लक्षण ।

अवेदनं स्थिरञ्चैव यस्मिन् गात्रे प्र-
दृश्यते । माषवत्कृष्णमुत्सन्नमनिला-
न्माषमादिशेत् ॥ ३६ ॥

किसी अंगमें वातसे पीडारहित, स्थिर, उदके
समान काली और फिचत् ऊँची गाँठ उत्पन्न हो
उसको माष अर्थात् मस्सा कहते है ॥ ३६ ॥

कृष्णानि तिलमात्राणि नीरुजानि
समानि वा । वातपित्तकफोद्रेके ना-
न्विद्यात्तिलकालकान् ॥ ३७ ॥

काले तिलके समान पीडारहित, शरीरके समान
जो देहमें चिह्न होते है उनको तिलकालक और
लोकमें तिल कहते है यह त्रिदोषज है ॥ ३७ ॥

जन्तुमणिकादिकी चिकित्सा ।
चर्मकीलं जन्तुमणिं माषकांस्तिल-
कालकान् । उत्कृत्य शस्त्रेण दहेत्क्षार-
राश्रिभ्यामशेषतः ॥ ३८ ॥

चर्मकील, जन्तुमणि, माप और तिलकालक इनको शस्त्रसे चीरकर फिर सम्पूर्ण रीतिसे क्षार और अम्लिके द्वारा दहन कर ॥ ३८ ॥

मुखदूषिकाके लक्षण ।

शाल्मलीकण्टकप्रख्याः कफमारुत-
शोणितैः । जायन्ते पिटका यूनां वि-
ज्ञेया मुखदूषिकाः ॥ ३९ ॥

कफ, वात और रुधिरके कुपित होनेपर युवा मनु-
ष्यके मुखपर सेमलके काँटोंके समान जो पिडिका
उत्पन्न होती है उनको मुखदूषिका (मुँहासे) कहते
हैं ॥ ३९ ॥

न्यच्छके लक्षण ।

महद्वा यदि वारुपं स्याच्छचारुं वा
यदि वा सितम् । नीरुजं मण्डलं
गात्रे न्यच्छामित्यभिधीयते ॥ ४० ॥

बड़ा अथवा छोटा काला या सफेद शरीरके साथ
उत्पन्न हुआ और वेदना रहित जो मण्डल होता है
उसको न्यच्छ कहते हैं ॥ ४० ॥

व्यंगके लक्षण ।

क्रोधायासप्रकुपितो वायुः पित्तेन
संयुतः । मुखमागम्य सहसा मण्डलं
विसृजत्यतः ॥ नीरुजं तनुकं श्यावं
मुखे व्यङ्गं तमादिशेत् ॥ ४१ ॥

क्रोध और श्रमसे पित्तके साथ वायु कुपित होकर
एक साथ मुखमें प्राप्त होकर मुखपर काले पतले
और पीडारहित मण्डल उत्पन्न करता है उसको व्यंग
(झँई) कहते हैं ॥ ४१ ॥

नीलिकाके लक्षण ।

कृष्णमेवं गुणं गात्रे मुखे वा नीलि-
कां विदुः ॥ ४२ ॥

व्यंगके समान लक्षणोंवाला जो काला मण्डल,
अंगमे अथवा मुखपर ही हो उसको नीलिका कहते
हैं । व्यंग और नीलिकामे केवल इतनाही अन्तर
है कि व्यंग लालिमा लिये काला होता है और
नीलिका विशेष काला होता है ॥ ४२ ॥

मुखदूषिकादिकी चिकित्सा ।

युवानपिटकान्यच्छनीलिकाव्यङ्गश-
र्कराः । शिराव्यधैः प्रलेपैश्च जयेद-

भ्यञ्जनैस्तथा ॥ ४३ ॥

युवानपिटिका (मुँहासे) न्यच्छ, नीलिका, व्यंग
(झँई) और शर्करा इनकी शिरावेध (नसको खोलना)
प्रलेप और अभ्यगसे चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ४३ ॥

मुखपर लेप करनेकी मात्रा और लेप
करनेकी विधि ।

अंगुलस्य चतुर्भागो मुखलेपो विधी-
यते । मध्यमस्तु त्रिभागः स्यादुत्त-
मोर्धागुलो भवेत् ॥ स्थितिकालश्च
शुष्कत्वं शुष्को दूषयति त्वचम् ॥ ४४ ॥

मुखपर चौथाई अंगुल प्रमाण लेप करना कनिष्ठ-
मात्रा है । अंगुलका तीसराभाग लेप करना मध्यम
मात्रा है । और आधे अंगुल प्रमाण लेप करना
उत्तम मात्रा है । लेप की हुई औपधि जबतक सूखे
नहीं तबतक मुखपर रखनी चाहिये, सूखनेके पश्चात्
मुखपर नहीं रखना चाहिये क्योंकि सूखा हुआ लेप
त्वचाको दूषित करता है ॥ ४४ ॥

रोध्रधान्ववचालेपस्तारुण्यपिटका-
पहः । तद्द्रवोरोचनायुक्तं मरिचं सु-
खलेपनात् ॥ ४५ ॥

लोध, धनियाँ और वच इनको पीसकर लेप करनेसे
युवा अवस्थाकी पिडिका दूर होती है । गोरोचन
और कालीमिरचोको एकत्र पीसकर लेप करनेसे
युवापिडिका दूर होती है ॥ ४५ ॥

सिद्धार्थकवचालोध्रसैन्धवैश्च प्रलेप-
नम् । वमनं च निहन्त्याशु पिटिकां
यौवनोद्भवाम् ॥ ४६ ॥

सफेद सरसो, वच, लोध और संधानमक इनका लेप करनेसे अथवा इनके द्वारा व्रमन करानेसे यौवनकी पिडिका शान्त होती है ॥ ४६ ॥

व्यङ्गेषु चार्जुनत्वग्वा मञ्जिष्ठा वा समाश्लिष्या । लेपः सनवनीतो वा श्वेताश्वखुरजामषी ॥ ४७ ॥

अर्जुनकी छाल अथवा मजीठ और शहद इनको एकत्र मिलाकर लेप करनेसे अथवा सफेद घोंडेके चुरकी स्याही बनाकर नैनीघामें मिलाकर लेप करनेमें व्यंग दूर होती है ॥ ४७ ॥

रक्तचन्दनमञ्जिष्ठाः कुष्ठलोध्रप्रियङ्गु-
वः । वटाङ्कुरमसूराश्च व्यङ्गघ्ना मुख-
कान्तिदाः ॥ ४८ ॥

लालचन्दन, मजीठ कूठ; लोध, फूलप्रियंगू वडके अंजुर और मसूर इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे व्यंग (झाई) दूर होती है और मुखकी कांति बढ़ती है ॥ ४८ ॥

व्यङ्गानां लेपनं शस्तं रुधिरण शश-
स्य च । व्यङ्गो मञ्जिष्ठया कुय्याल्लेप-
नं मधुसंयुतम् ॥ ४९ ॥

खरगोशक रुधिरका लेप करनेसे व्यंग (झाई) दूर होती है मजीठको पीसकर, शहदमें मिलाकर लेप करनेसे व्यंग (झाई) दूर होती है ॥ ४९ ॥

निलतैलं प्रतिमर्षात्रिसप्ताहात्कृता-
भवम् । नश्यन्ति चण्डपिटिकाः प-
योत्था इव धर्मतः ॥ ५० ॥

तिलक तेलकी तीन सप्ताह पर्यन्त नम्य देनेसे अत्यन्त प्रचण्ड पीडिका ऐसे नष्ट होजाती है जैसे बूष लगनेसे घृत पिघल जाता है ॥ ५० ॥

मातुलुङ्गजटासर्पिः शिलागोशकृतो
रसः । मुखकान्तिकरो लेपः पिटिका
व्यङ्गकालजित ॥ ५१ ॥

विजारेनीबूकी जड, घी, मैनशिल, गोवरका रस इन सबको एकत्र करके लेप करनेसे मुखकी कांति बढ़ती है तथा मुखकी पिडिका मुहासे व्यंग (झाई) और कलौच दूर होती है ॥ ५१ ॥

परिणतदधिसरपुद्गैः कुवलयदलकु-
ष्ठचन्दनोशीरैः । मुखकमलकान्ति-
कारि पिटिकातिलकालकाञ्जयति ॥ ५२ ॥

तगर, दही, सरफोंका, कमलके पत्ते, कूठ, चन्दन और खस इन सबको एकत्र पीसकर मुख-पर लेप करनेसे मुख कमलके समान कांतिवाला होजाता है तथा पिडिका (मुहासे) और तिलकाल-करोग दूर होता है ॥ ५२ ॥

त्रिभुवनविजयापत्रं मूलं स्थविरस्य
शिशपा चैभिः । कल्पितमुद्वर्त्तनैम्ब्य-
न्यच्छव्यंगापहं सिद्धम् ॥ ५३ ॥

भाँग, विधारेकी जड अथवा देवदारु और सीसम इन सबको एकत्र पीसकर उद्वर्त्तन करनेसे न्यच्छ और व्यंगरोग दूर होता है ॥ ५३ ॥

अर्कक्षीरहरिद्राभ्यां मर्दयित्वा प्रले-
पनात् । मुखकाण्यर्थं शमं याति
चिरकालोद्भवं ध्रुवम् ॥ ५४ ॥

आकका दूध और हलदी इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे बहुत दिनोंकी मुखकी कृष्णता दूर होती है ॥ ५४ ॥

गोमयस्य रसः सर्पिर्मातुलुङ्गं मनः-
शिला । मुखस्य वर्णकरणं तिलका-
लकनाशनम् ॥ ५५ ॥

गोवरका रस, घी, विजोरानीबू और मैनशिल इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे मुखकी शोभा बढ़ती है और तिलकालक दूर होता है ॥ ५५ ॥

वटस्य पांडुपत्राणि मालतीरक्तचन्द-
नम् । कुष्ठं कालीयकं लोध्रभेमिलेपं
प्रयोजयेत् ॥ ५६ ॥ युवानपिटिका-
नां तु व्यंगानां च विनाशनम् । मुखं
पद्मानिभं कुय्यात्रीलिकादिवि-
जितम् ॥ ५७ ॥

वडके पीले पत्ते, चमेलीके पत्र, लालचन्दन, कूठ, पीला चन्दन और लोध इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे युवा अवस्थाकी पिडिका और व्यंग (झाई) दूर होती है । मुख कमलके समान होता है और नीलिकादिरोग नष्ट होते हैं ॥ ५६ ॥ ५७ ॥

यवान्सर्जरसं लोभ्रमुशीरं चन्दनं म-
धु । घृतं गुडश्च गोमूत्रे पचेदादावि-
लेपनम् ॥ ५८ ॥ तदभ्यङ्गात्रिहन्त्या-
शु नीलिकां व्यङ्गदपिकाम् । मुखं
करोति पद्माक्षं पादौ पद्मदलोपमौ ॥ ५९ ॥

जो, राल, लोव, सरा, चन्दन, शर्द, घो, गुड
और गोमूत्र इन सबको एकत्र पकावे । जब पकते २
करछीसे लगने लगे तब उतार लेवे । इसको मलनेगे
शीघ्र ही नीलिका, व्यंगऔर मुखदूपिकादिरोग नष्ट
होते है । एवं मुख कमलके समान और पाव कमल-
पत्रके समान हो जाते है ॥ ५८ ॥ ५९ ॥

कालीयकोत्पलाऽऽमयदधिसरवरा-
स्थिमध्यफलनीभिः । लिप्तं भवति
हि वदनं शशिप्रभं सतरात्रेण ॥ ६० ॥

पीलाचन्दन, कमल, कूठ, वहीकी मलाई, त्रिफ-
लेकी मीग और फूलप्रियंगु इनको एकत्र पीसकर
लेप करनेसे मुख सात दिनमें चन्द्रमाके समान हो
जाता है ॥ ६० ॥

रक्षोघ्नशर्वरीद्वयमञ्जिष्ठागैरिकाह-
वस्तपयः । सिद्धेन लिप्तमाननमुख-
च्छरदिन्दुबिम्बवद्विभाति ॥ ६१ ॥

सफेद सरसो, हलदी, वारुहलदी, मजीठ और
गेरु इनको बकरी या भेडके दूधमें पकाकर मुखपर
लेप करनेसे मुख शर्द ऋतुके चन्द्रमाके समान
निर्मल हो जाता है ॥ ६१ ॥

प्रियङ्गुचन्दनं लोभ्रं कुष्ठं पांडुवटच्छ-
दम् । कालीयकान्वितं लेपात्कुर्ग्या-
चन्द्रनिभं मुखम् ॥ ६२ ॥

फूलप्रियंगु, चन्दन, लोव, कूठ, वडके पीले पत्ते
और पीलाचन्दन इनको पीसकर लेप करनेसे मुख
चन्द्रमाके समान होता है ॥ ६२ ॥

हरिद्राद्यतैल ।

हरिद्राद्वययष्ट्याहकालीयककुचन्द-
नैः । प्रपौण्डरीकमञ्जिष्ठाः पद्मकं कु-
ष्ठकुंकुमम् ॥ ६३ ॥ कपित्थतिन्दुक-

पुष्पवटपत्रैः पयोन्वितैः । पाचयन्क-
लिकर्तुरंतरतैलं वाभ्यङ्गने चरेत् ॥ ६४ ॥
विष्टवं नीलिकाव्यङ्गनिलकान्मुखद-
पिकान् । नित्यसेवी जयन्क्षिप्रं मुखं
कुर्ग्यान्मनोहरम् ॥ ६५ ॥

हलदी, वारुहलदी, मुँडैठी, कूठ, चन्दन, लालच-
न्दन, पुँडैरिया, मजीठ, पत्रान, कूठ, केशर, लोव, सेंडू
पायस और नरुंड पचे इनका दूधमें पान्वाए इनके
द्वारा तेलको पकावे । इस तेलकी नित्य माछिष
करनेसे नीलिका, व्यंग, तिलकालक और मुखदूपिका-
दिरोग दूर होते हैं तथा मुख अत्यंत मनोहर
हो जाता है ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥

मञ्जिष्ठाद्यतैल ।

मञ्जिष्ठाकेशरं लाक्षा सर्पपालोघ्रच-
न्दनम् । प्रपौण्डरीकं मधुकं पतङ्गं गै-
रिकं वचा ॥ ६६ ॥ कार्पासास्थिशि-
लामज्जकपैः कलैर्द्वयोन्वितैः । पचेत्तै-
लरय कुडवमजाक्षीरं चतुर्गुणम् ॥ ६७ ॥
सिद्धेऽवतारिते दद्यान्मधुच्छिष्टं द्विरं-
शकम् । अक्षयेन्मुखमेतेन सतरात्र-
मतन्द्रितः ॥ ६८ ॥ पिटकास्तेन शा-
शयन्ति तिलकाव्यङ्गकालिकाः ।
मुखकाष्ण्यं जन्तुमणिपद्मिनीकण्ट-
कास्तथा । मञ्जिष्ठाद्यमिदं तैलं मुख-
वर्णप्रसादनम् ॥ ६९ ॥

मजीठ, केशर, लाख, सरसो, लोव, लालचन्दन,
पुँडैरिया, मुँडैठी, पतंग, गेरु, वच, विनौलेकी दाल,
मैनशिल और चर्ची ये प्रत्येक औषधि दो दो तोले
लेवे, इनका कलक बनाकर एक कुडव परिमाण
तिलके तेल, चर्ची या हड्डीके भीतरका स्नेह और
तेलसे चोगुने दूधमें एकत्र मिलाकर पकावे । जब
पककर तेल सिद्ध हो जाय तब उसमें मोम २ भाग
मिलावे । इसको एक सप्ताह पर्यंत मुखपर मलनेसे
पिडिका, तिलकालक, व्यंग, नीलिका, मुखकी
कृष्णता, जन्तुमणि और पद्मिनी कण्टकादिरोग दूर
होते है । यह मञ्जिष्ठाद्यतैल मुखके वर्णको उज्ज्वल
करनेवाला है ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥

कनकतैल ।

मधुकस्य कपायेण तैलस्य कुडवं पचे-
त् । कल्कैः प्रियंगुमञ्जिष्ठाचन्दनोत्पल-
केशरः ॥७०॥ कनकं नाम तत्तैलं मु-
खकान्तिकरं परम् । अभीरुनीलिका-
व्यंगशोधनं परमर्चितम् ॥ ७१ ॥

मुलैठीके काथमें एक कुडव परिमाण तिलका तेल
फूलप्रियगु, मजीठ, चन्दन, कमल और केसर
इनका कल्क डालकर पकावे । इसको कनकतेल
कहते हैं । यह तेल—मुखकी कांतिको बढानेवाला
तथा अभीरुनीलिका, व्यंग आदि रोगोंका दूर
करता है ॥ ७० ॥ ७१ ॥

कुंकुमाद्यतैल ।

कुंकुमं चन्दनं पत्रमुशीरं चन्दनोत्प-
लम् । गोरोचना हरिद्रे द्वे मञ्जिष्ठा म-
धुयष्टिका ॥७२॥ पतङ्गं शारिवा लोभ्रं
कूष्ठं गैरिककेशरम् । स्वर्णमाक्षीप्रि-
यंगुश्च कालीयं रक्तचन्दनम् ॥ ७३ ॥
एतैरक्षसमैर्भागैस्तैलप्रस्थं विपाच-
येत् । अभ्यङ्गो राजपत्नीभ्यां ये चान्ये
धनिनो नराः ॥ ७४ ॥ तिलका-
पिष्टिकाव्यङ्गनीलिकामुखदूषिकाः ।
शर्कराश्च शरीरस्य दुश्छायाश्च वि-
सर्पणम् ॥ ७५ ॥ नाशयत्याशु जनये-
द्रूपं चापि मनोरमम् । पद्मकेशरवर्णा-
भं मुखं भवति कान्तिमत् ॥ ७६ ॥

केसर, चन्दन, तेजपात, खस, लालचन्दन,
कमल, गोरोचन, हलदी, दासुहलदी, मजीठ, मुलैठी,
पतंग, शारिवा, लोभ, कूठ, गेरु, नागकेशर, सोना-
मकली, फूलप्रियगु, अम्बाहलदी और लालचन्दन,
ये प्रत्येक औषधि प्रकृ एक तोला लेकर कल्क
बनावे । इस कल्कके द्वारा एक प्रस्थ तेलको पकावे ।
राजपत्नी और धनवान् मनुष्योंको इस तेलकी
मालिश करनी चाहिये । यह तेल—तिल, पिष्टिका,
व्यंग, नीलिका, मुखदूषिका, शर्करा और शरीरमें
अशुभ छायाका फैलना इन सबको दूर करता है ।

सुन्दर मनोरम रूप होता है तथा मुख कमलकी
केसरके समान और कांतियुक्त होता है ॥ ७२ ॥
॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥

पद्मिनीकण्टकके लक्षण ।

कण्टकेराचितं वृत्तं मण्डलं पांडु कं-
डुरम् । पद्मिनीकण्टकप्रख्यैस्तदाख्यं
कफवातजम् ॥ ७७ ॥

कफ तथा वायुसे उत्पन्न हुई कमलके काँटोंके
समान कांटोंसे व्याप्त, खुजली सहित, गोल और
किंचित् पांडु वर्ण जो मण्डल होता है उसको पद्मि-
नीकण्टक कहते हैं ॥ ७७ ॥

पद्मिनीकण्टककी चिकित्सा ।

पद्मिनीकण्टके रोगे छर्दयेन्निम्बवा-
रिणा । तेनैव सिद्धं सक्षौद्रं सर्पिष्पा-
तुं प्रदापयेत् ॥ ७८ ॥ निम्बवारवधक-
ल्कैर्वा मुहुरुद्धर्त्तनं हितम् ॥ ७९ ॥

पद्मिनीकण्टकरोगमें नीमके जलके द्वारा वमन
करावे । तथा नीमके पानीके द्वारा घृतको पकाकर
उसमें मधु डालकर पान करे । और नीम एवं अमल-
तासके कल्कके द्वारा चारंचार उद्धर्त्तन करे ७८ ॥ ७९ ॥

पाददारीके लक्षण ।

परिक्रमणशीलस्य वायुरत्यर्थरूक्ष-
योः । पादयोः कुरुते दारीं सरुजां
तलसंश्रिताम् ॥ ८० ॥

अत्यंत मार्ग चलनेवाले मनुष्यके या जिनके एडि-
योकी रेखामें मट्टी भरी रहे, पाव वायुके योगसे
रूखे होजाते हैं तब वायु पैरोंके तलुओको विदीर्ण
कर देती है उसमें पीडा होती है उसको पाददारी
कहते हैं और देशमें इसको 'विवाई' कहते हैं ॥ ८० ॥

पाददारीकी चिकित्सा ।

पाददाय्यां शिरां प्राज्ञो मोक्षयेत्तल-
शोधनीम् । स्नेहस्वेदोपपन्नौ तु पा-
दौ वा लेपयेन्मुहुः । मधुच्छिष्टवसा-
नजाघृतैः क्षारविमिश्रितैः ॥ ८१ ॥ स-
र्जाहसिंधुद्रवयोश्चूर्णं मधुघृताप्लुत-
म् । निर्ममथ्य कटुतैलाक्तं हितं पाद-
प्रमार्जनम् ॥ ८२ ॥

पाददारीरोगमें वैद्य तलुओको गुठ करनेके लिये नसको रोलकर रुधिरको निकलवावे । पाँवोंमें स्नेहन तथा स्वेदन करके पश्चात् सोम, चर्बी, मजा घी और जवाखार इनको एकत्र मिलाकर बारवार लेप करे तो पाददारी (विवाई) दूर होजाती है राल, सैधानमक, शहद और घी इन सबको एकत्र कढवे तेलमें मिलाकर पाँवोंपर लेप करनेसे विवाई दूर हो जाती है ॥८१ ॥८२ ॥

मधुसिक्थकसैन्धवघृतगुडमाहिषाख्य-
सालनिर्यासैः । गैरिकसहितैलेपः
पादस्फुटनापहः सिद्धः ॥ ८३ ॥

सोम, सैधानमक, घी, गुड, भैंसिया गूगल, राल और गेरु इनको एकत्र मिलाकर लेप करनेसे पाँवोंका फटना बंद हो जाता है ॥ ८३ ॥

खाखसजालीमुस्तकहविषा संलिप्य
चरणमतिबहुशः । संमृद्य नयति नाशं
पादस्फुटनाह्वयं रोगम् ॥ ८४ ॥

खसखस, तोरई और नागरमोथा इनको एकत्र पीसकर घीमें मिलाकर पाँवोंपर लेप करनेसे तत्काल ही पाँवोंका फटना बंद हो जाता है ॥ ८४ ॥

उपोदिकाद्यतैल ।

उपोदिकासर्षपनिंबमोचकर्कारुर्कैर्वा-
रुकभस्मतोयैः । तैलं विपक्वं लव-
णांशयुक्तं तत्पाददारीं विनिहन्ति
लेपात् ॥ ८५ ॥

पोईका शाक, सरसो, नीम, केला, पेठा और ककड़ी इनकी भस्म बनाकर उसको जलमें नितारे । इस क्षार जलके द्वारा तेलको पकावे । इस तेलमें सैधानमक डालकर मालिस करे तो पाददारीरोग शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ॥ ८५ ॥

उन्मत्ततैल ।

उन्मत्तकस्य नरिण्येण माणकक्षारवारि-
णा । कटुतैलं विपक्वन्तु शीघ्रं हन्या-
द्विपादिकाम् ॥ ८६ ॥

धतूरेके जल और मानकन्दके क्षारजलके द्वारा कढवे तेलको पकावे यह तेल शीघ्रही विपादिकारोगको दूर करता है ॥ ८६ ॥

कदरके लक्षण ।

शर्करोन्मिथिते पादे क्षते वा कण्ट-
कादिभिः । ग्रन्थिः कोलवदुत्सत्रो जा-
यते कदरन्तु तत् ॥ ८७ ॥

पाँवोंमें कजर, पत्थर, रेत आदिके लगानेमें अथवा काँटे आदिके छिदजानेसे पाँवमें छोटे धरके समान ऊँची गाँठ उत्पन्न होती है उसको कदर कहते हैं देगंम ठेक या छेठ कहते हैं ॥ ८७ ॥

कदरकी चिकित्सा ।

दहेत्कदरमुद्धृत्य तैलेन दहनेन
वा ॥८८॥

कदरको शस्त्रसे चीरकर गरम तेलका अथवा अभ्रिका दाग देनेसे कदर नष्ट हो जाती है ॥ ८८ ॥

चिप्यके लक्षण ।

नखमांसमाधिष्ठाय वायुः पित्तञ्च दे-
हिनाम् । कुरुते दाहपाका च तं व्या-
धिं चिप्यमादिशेत् ॥ ८९ ॥

वात और पित्त यह मनुष्योंके नखोंके मांसमें प्राप्त होकर नखको क्षय करते हैं तथा दाह और पाकको करते हैं उसको चिप्यरोग कहते हैं ॥८९॥

चिप्यकी चिकित्सा ।

चिप्यं शोणितमोक्षेण शोधनैश्चाप्यु-
पाचरेत् । गतोष्माणं तथा चैनमुष्णां-
बुपरिषेचितम् ॥ ९० ॥

चिप्यरोगमें रुधिर निकलवावे और शोधन करे और जो इसमें गरमी रहे तो गरम जलसे सेचन करे ॥ ९० ॥

शस्त्रेणापि यथायोगमुत्कृत्य स्राव-
येद्भ्रगम् । व्रणोक्तेन विधानेन रोपये-
त्तं विचक्षणः ॥ ९१ ॥

विचक्षण वैद्य योग्यरीत्यनुसार चिप्यको शस्त्रसे चीरकर स्राव करावे, पश्चात् व्रणकी चिकित्साके अनुसार शोधन रोपण करे ॥ ९१ ॥

शिला तेजोवती चैव रोचना च रसा-
अनम् । कल्केरैतौरंबुपिष्टैः शोधयित्वा
त्रणञ्च तत् ॥ ९२ ॥

मैनाशिल, तेजबल, गोरोचन और रसौत इन स-
बको एकत्र जलमें पीसकर त्रणको शुद्ध करनेके
लिये प्रयोग करे ॥ ९२ ॥

हरिद्रागुल्मकालीयकल्कैश्च सरसा-
अनैः । सिद्धेन तिलतैलेन ततस्तु
रोपयेद्द्रणम् ॥ ९३ ॥

हलदी, आंवाहलदी और रसौत इनको एकत्र पीस
कर इनके द्वारा तेलको पकाव इस तेलको त्रणोप-
णके लिये प्रयोग करे ॥ ९३ ॥

दाडिमजकुसुमधन्वयासाभयाश्लक्ष्ण-
चूर्णिता क्षिप्ता । नखकोटिप्रतिभागं
शामयति च शूलं तत्क्षणतः ॥ ९४ ॥

अनारके फूल, धमासा और हरड इनका वारीक
चूर्ण करके बुरकानेसे नखका गला हुआ मांस और
शूल तत्काल दूर होता है ॥ ९४ ॥

अन्तर्धूमनिदग्धस्य हरितालान्वित-
स्य च । तंडुलीयकमूलस्य चूर्णं
पूतिनखापहम् ॥ ९५ ॥

चौलाईकी जड़ और हरितालको एकत्र पुटपाक-
की विधिसे भस्मकर फिर चूर्ण करके लगानेसे पूति-
नख दूर होता है ॥ ९५ ॥

उद्धृत्य क्रीणात्समुपारय कंकं सित्तं
नखं पूयत्वगस्थिमज्जः । तैलप्रदाना-
त्सततं नखाश्च रोहन्ति शुद्धा विग-
तामयाश्च ॥ ९६ ॥

चिप्यरोगमें नखके कोनेको चीरकर उसमें कल्क
भरे और जिसमें राध, त्वचा, अस्थि और मज्जा
दीखने लगे उसको बारबार औषधियोंके फायसे
धोवे । बारबार शुद्ध नखपर तेल लगानेसे नखका
त्रण दूर हो कर भर जाता है ॥ ९६ ॥

स्वरसेन हरिद्रायाः पात्रे कृत्वायसे-
भयाम् । पिष्ट्वा तज्जेन कल्केन लि-
म्पेच्चिप्यं पुनःपुनः ॥ ९७ ॥

हलदीके स्वरसको लोहेके पात्रमें ढालकर उसमें
हरडको घिसकर बारबार चिप्यपर प्रलेप करनेसे नख
आरोग्य हो जाते हैं ॥ ९७ ॥

कुनखलक्षण ।

तदेवाल्पतरैर्दोषैः कुनखं परुषं भवे-
त् ॥ ९८ ॥

जो इस चिप्यरोगमें दोषोंकी अल्पता हो तो इसको
कुनख कहते हैं, यह विशेष रूखासा होता है ॥ ९८ ॥

तंत्रान्तरे च-

अभिघातात्प्रदुष्टो यो नखो रूक्षो सि-
तः खरः । भवेत्तं कुनखं विद्यात्कुली-
रमितिसंज्ञितम् ॥ ९९ ॥

काष्ठ आदिकी चोटके लगनेसे दुष्ट हुवा नख रूखा
सफेद और खरखरा होजाता है इसको कुनख अथवा
कुलीरक कहते हैं ॥ ९९ ॥

कुनखकी चिकित्सा ।

श्लेष्मविद्रधिकल्केन कुनखं समुपाच-
रेत् ॥ १०० ॥

कुनखके रोगपर कफविद्रधिके समान चिकित्सा
करे ॥ १०० ॥

नखकोटिप्रविष्टेन टङ्कणेन न शाम्य-
ति । कुनखश्चेतदा भ्रान्तः शैलोऽपि-
प्लवते जले ॥ १०१ ॥

कुनखके भीतर सुहागा भरनेसे कुनख निश्चय
आराम हो जाता है यदि इस प्रकार करनेसे कुनख
आरोग्य नहीं हो तो पत्थर भी इधर उधर जलमें
तैरने लगे ॥ १०१ ॥

काश्मर्याः सप्तभिः पत्रैः कोमलैः
परिवेष्टितैः । अंगुलीवेष्टकः पुंसां
ध्रुवमाशु नशाम्यति ॥ १०२ ॥

कुम्भरके कोमल सात पत्तोंको अंगुलीपर बाँध-
नेसे अंगुलीवेष्टकरोग दूर होता है ॥ १०२ ॥

अलसके लक्षण ।

क्लिन्नांगुल्यन्तरौ पादौ कंडूदाहरु-
जान्वितौ । दुष्टकर्दमसंस्पर्शादलस-
न्तं विभावयेत् ॥ १०३ ॥

पाँवोंके अंगुलियोंके तलुवे भीजे रहनेसे और सड़ी
हुई कीच तथा मेघादिकके जलमे बहुत फिरनेसे अ-
ंगुलियोंके बीचमे सफेद दादसे होजाते है उनमें अत्य-
न्त खुजली, दाह और पीडा होती है उसको अलस
(खारुआ) कहते है ॥ १०३ ॥

अलसकी चिकित्सा ।

पादौ सिक्कारनालेन लेपनं त्वलसे
हितम् । कल्कैः कृतैर्निम्बतिलशिला-
कासीसरोचनैः ॥ १०४ ॥ लाक्षा-
भयारसालेपः कार्य्ये वा रक्तमोक्ष-
णम् ॥ १०५ ॥

अलसरोगमे पाँवोंको प्रथम काँजीसे सीचकर फिर
लेप करे । नीम, तिल, मैनाशिल, कसीस और गोरोचन
इनका कल्क बनाकर लाख और हरडोंके रसमे मिला-
कर लेप करनेसे अलसरोग दूर होता है अथवा इसमें
रक्तमोक्षण करावे ॥ १०४ ॥ १०५ ॥

बृहतीरससिद्धेन तैलेनाभ्यज्य बुद्धि-
मान् । शिलारोचनकाशीसचूर्णैर्वा
प्रतिसारयेत् ॥ १०६ ॥

बड़ीकटेरीके रसके द्वारा तेलको पकाकर उसतेल-
का अलसपर लेप करे अथवा मैनाशिल, गोरोचन और
कसीस इनका चूर्ण करके प्रतिसारण करे ॥ १०६ ॥

करञ्जबीजं रजनी काशीसं पद्मकं म-
धु । रोचना हरितालश्च लेपोऽयमलसे
हितः ॥ १०७ ॥

करंजके बीज, हलदी, कसीस, पद्माख, शहद,
गोरोचन और हरिताल इन सबको एकत्र पीसकर
लेप करनेसे अलसरोग दूर होता है ॥ १०७ ॥

अरुंधिकाके लक्षण ।

अरुंधि बहुवक्राणि बहुक्लेदीनि मू-
र्धनि । कफासृक्कृमिकोपेन नृणां
विद्यादरुंधिकाम् ॥ १०८ ॥

मनुष्योंके मस्तकमे कफ रुधिर और कृमिके को-
पसे बहुतसी अनेक मुखवाली फुन्सी हो जाँय और
उनमे राध वहे तो उनको अरुंधिका कहते है ॥ १०८ ॥

अरुंधिकाकी चिकित्सा ।

अरुंधिकां जलौकाभिर्राहयेद्बहुशो
भिषक् । प्रक्षालयेन्मुहुस्तत्र सैन्धव-
काथवारिभिः ॥ १०९ ॥

अरुंधिकामे वारंवार जोक लगवावे तथा सैन्धवादि
काथके द्वारा वारंवार धोवे ॥ १०९ ॥

अरुंधिकायां रुधिरेश्वसित्ते शिरा-
व्यधेनाथ जलौकसा वा । निम्बा-
म्बुसित्ते शिरसि प्रलेपो देयोऽश्वत्थो-
रससैन्धवाभ्याम् ॥ ११० ॥

अरुंधिकामें शिरा वेधकर रुधिर निकलवावे अथवा
जौक लगाकर रुधिर निकाले, तथा नीमके जलसे
सेचन करे एवं घोडेकी लीदके रसमे सैधानमक मि-
लाकर शिरपर लेप करे ॥ ११० ॥

सुहुर्मुहुस्ततो लिम्पेत्पटोलारिष्टवा-
सकैः । खदिरारिष्टजंबूनां त्वग्भिर्वा
मूत्रसंयुतैः ॥ १११ ॥

पटोलपत्र, नीम और अडूसा इनके कल्कका वारं-
वार लेप करे । खैर, नीम और जामुन इनकी छालको
गोमूत्रमे पीसकर प्रलेप करनेसे अरुंधिकारोग दूर
होता है ॥ १११ ॥

कुटजत्वक् च लवणं संप्रपिष्टं प्रलेप-
येत् । गोशकृद्रसपिष्टं वा तालमूलं
प्रशस्यते ॥ ११२ ॥

कुडेकी छाल और सैधानमक इनको एकत्र पीस
कर लेप करनेसे अथवा ताडकी जडको गोबरके
रसमे पीस कर लेप करनेसे अरुंधिका रोग दूर
होता है ॥ ११२ ॥

निम्बोदकेन लवणैः प्रलेपोऽश्वशकू-
द्रसैः ॥ ११३ ॥

नीमके जलमे सैधानमक और घोडेकी लीदका
रस मिलाकर लेप करनेसे अरुंधिकारोग दूर होता
है ॥ ११३ ॥

पुराणमथ पिण्याकं पुरीषं कुक्कुटस्य
च । मूत्रपिष्टः प्रलेपोऽयं शीघ्रं हन्त्या-
दरुणिकाम् ॥ ११४ ॥

पुरानी सब और मुरगेकी विष्ठा इनको गोमूत्रमें
पीसकर लेप करनेसे अरुणिकारोग शीघ्र नष्ट होता
है ॥ ११४ ॥

कपालभ्रष्टकुष्ठं वा चूर्णितं तैलसंयु-
तम् अरुण्यां लेपनं क्लेददाहास-
ज्वरनाशनम् ॥ ११५ ॥

कूठको एक ठीकरेमें भूनकर उसका चूर्ण करलेवे
उसके तेलमें मिलाकर लेप करनेसे अरुणिका, क्लेद,
दाह, रक्तविकार और ज्वर नष्ट होता है ॥ ११५ ॥

स्तुह्यर्कदग्धधतूरपत्रं मूत्रविमिश्रि-
तम् । लेपनं तैलसंयुक्तं हितं कंडूशि-
रोव्रणे ॥ ११६ ॥

थूहर तथा आकका दूध और धतूरेके पत्ते इनको
गोमूत्रमें पीसकर तेलमें मिलाकर लेप करनेसे शिरकी
सुजली और शिरोव्रण नष्ट होते हैं ॥ ११६ ॥

मुण्डयित्वा शिरः पूर्वं क्रियामेतां
प्रयोजयेत् ॥ ११७ ॥

प्रथम शिरको मुँडवाकर फिर यह क्रिया करनी
चाहिए ॥ ११७ ॥

हरिद्राद्वय-भूनिम्बत्रिफलारिष्टचन्द-
नैः । एतत्तैलमरुषीणां सिद्धमभ्य-
ञ्जने हितम् ॥ ११८ ॥

हलदी, दारुहलदी, चिरायता, त्रिफला, नीम और
चन्दन इनके द्वारा तेलको पकावे । इस तेलकी मालिश
करनेसे अरुणिकारोग दूर होता है ॥ ११८ ॥

स्तुह्याद्यतैल ।

स्तुही सुपरशुच्छिन्ना शालिपर्णज-
मृत्तिका । एतेषां पलिकान् भागान्
कर्षं स्यात्केशभस्मतः ॥ ११९ ॥ शफ-
रीं विंशतिं दद्यात्तावन्तीं माक्षिकाः
क्षिपेत् । अरुणिकां नाशयति जयेद्
दुष्टव्रणानपि ॥ १२० ॥ नखदन्तक्षतो-
त्पन्नान्विच्छिन्नांश्च विसर्पिणः । अत्य-

न्तपूयबहुला अस्त्रावाः कृपिताश्च ये
॥ १२१ ॥ म्रक्षणाच्छोषयेद्ग्रीष्मं पल्ल-
वाम्भोरुहान्यथा । शोधयेद्ग्रीष्मं यथैव
यथाभिहितभोजिनः ॥ १२२ ॥

उत्तम कुल्हाड़ेसे कटा हुआ थूहर, शालिपर्णी और
वफरीके स्थानकी मिट्टी ये प्रत्येक चार चार तोले,
वालोकी भस्म १ तोला, मछली २० और मक्खी
२० इन सबको एकत्रित करके तेलमें पकावे । यह
तेल मलते ही-अरुणिका और दुष्टव्रण दूर करता
है । तथा नख और दाँतसे उत्पन्न हुए क्षत, विच्छिन्न
फैलनेवाले, जिनमें अत्यन्त राध बहती हो अथवा
जिनमें त्रिलकुल राध नहीं बहती हो और सूजे हुये
हो ऐसे व्रण शीघ्र भरजाते हैं । जैसे ग्रीष्म ऋतु
पत्तोंसहित कमलोंको सुखा देता है । यह व्रणको
भरनेवाला और शुद्ध करनेवाला है । इसपर हित-
कारक भोजन करना चाहिये ॥ ११९-१२२ ॥

मांसीतैल ।

मांसीस्वरससंसिद्धं कटुतैलं चतुष्प-
लम् । मनःशिला तथा मांसी राजी-
वजश्च गन्धकम् ॥ १२३ ॥ शाणामा-
त्रैस्तदभ्यङ्गाद्धन्त्यवश्यमरुणिकाम् ।
पामां विचर्चिकाश्चैव तथान्याञ्छि-
रसो व्रणान् ॥ १२४ ॥

वालछडके स्वरसमें अथवा मांसरोहिणीके स्वर-
समें कडवा तेल १६ तोले, मैनशिल, वालछड या
मांसरोहिणी, कमलकेशर और गन्धक प्रत्येकका
कलक चार २ मासे डाल कर तेलको पकावे । इस
तेलकी मालिश करनेसे अरुणिकारोग, पामा, विच-
र्चिका और अन्यान्य शिरके सब व्रण अवश्य दूर
होते हैं ॥ १२३ ॥ १२४ ॥

इन्द्रलुप्तोक्तविधिना तैलेनानेन वा
जयेत् ।

इस अरुणिका रोगमें इन्द्रलुप्तोरोगमें कहेहुए तैलोंके
द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये ।

दारुणकके लक्षण ।

दारुणा कण्डुरा रूक्षा केशभूमिश्च
जायते । कफमारुतकोपेन विद्यादाह
णकं भिषक् ॥ १२५ ॥

वालोक उत्पन्न होनेकी जर्मान कफ और वातके कुपित होनेसे कठिन और रूग्नी हो कर अत्यन्त खुजाती है उसको दारुणक कहते हैं ॥ १२५ ॥

दारुणककी चिकित्सा ।

दारुणे तु शिरां विध्येत्स्निग्धां स्व-
त्रां ललाटजाम् । अवपीडशिरोव-
स्तिमभ्यंगाश्चावचारयेत् ॥ १२६ ॥

दारुणरोगमें स्निग्ध और स्वोदित करके मस्तककी शिराको वेधे तथा अवपीडन, शिरोवस्ति और अभ्यंग कर्म उन सबका प्रयोग करे ॥ १२६ ॥

कोद्रवाणां तृणक्षारपानीयं परिधा-
वने ॥ १२७ ॥

कोदोंके तृणोंके क्षारजलको धोनेके लिये लेवे ॥ १२७ ॥

कार्यो दारुणके मूर्ध्नि प्रलेपो मधु-
संयुतः । प्रियालबीजमधुककुष्ठमाषैः
ससैन्धवैः ॥ १२८ ॥

चिरौजी, मुलैठी, कूठ, उडद और सैधानमक इन सबको एकत्र पीसकर गृहदमं मिलाकर लेप करनेसे दारुणकरोग दूर होता है ॥ १२८ ॥

नीलोत्पलस्य किञ्चलकं धात्रीफलसम-
न्वितम् । यष्टीमधुकसंयुक्तं प्रलेपादा-
रुणं जयेत् ॥ १२९ ॥

नीलकमलकी केशर, आमले और मुलैठी इनको पीसकर लेप करनेसे दारुणकरोग दूर होता है ॥ १२९ ॥

गुञ्जादितैल ।

गुञ्जाफलैः शृतं तैलं भृङ्गराजरसेन
वा । कंडूदारुणहृत्कुष्ठकपालव्याधि-
नाशनम् ॥ १३० ॥

चौंटर्लाके काथ अथवा भाँगेके रसके द्वारा तैलको पकाकर लेप करनेसे खुजली, दारुण और कपालकुष्ठ नष्ट होता है ॥ १३० ॥

कीचकाद्यतैल ।

कीचकानां पलैः पिष्टैः कटुतैलं
प्रिपाचयेत् । सगोमूत्रं तदभ्यङ्गात्कपा-
लव्याधिनाशनम् ॥ १३१ ॥

छिद्रयुक्त वाँसका कल्क ४ तोले लेकर गोमूत्रमें मिलाकर कड़वे तेलमें पकावे । इस तेलकी मालिश करनेसे कपालरोग नष्ट होता है ॥ १३१ ॥

चित्रकतैल ।

चित्रकं दन्तिमूलञ्च कोशातकिसम-
न्वितम् । कल्कं पिष्ट्वा पचेत्तैलं केश-
दद्रुविनाशनम् ॥ १३२ ॥

चीता, दंतीकी जड़ और तोरई इनके कल्कके द्वारा तेलको पकावे । यह तेल-केशोंके दादको दूर करता है ॥ १३२ ॥

भृङ्गराजतैल ।

भृङ्गराजत्रिफलोत्पलशारि लोहपु-
रीषसमन्वितकारि । तैलमिदं पच-
दारुणहारि कुञ्चितकेशवन्स्थिरका-
रि ॥ १३३ ॥

भाँगरा, त्रिफला, कमल, शारिवा, लोह और मण्डूर इनके कल्कके द्वारा तेलको पकावे । यह तेल-दारुणकरोगको नष्ट करता है तथा केशोंको कुचित, घन और स्थिर करनेवाला है ॥ १३३ ॥

इन्द्रलुप्तके लक्षण ।

रोमकूपालुगं पित्तं वातेन सह मूर्च्छि-
तम् । प्रच्यावयति रोमाणि ततः
श्लेष्मा सशोणितः ॥ १३४ ॥ रुण-
द्धि रोमकूपांस्तु ततोऽन्येषामसम्भवः ।
तदिन्द्रलुप्तं खालित्यं रुह्येति च वि-
भावयेत् ॥ १३५ ॥

वातके साथ पित्त कुपित होकर रोमकूपोंमें प्राप्त होकर रोमोंको गिराता है, पश्चात् रुविरके साथ कफ रोमोंके छिद्रोंको रोक देता है इससे फिर बाल नहीं जमते । इसको इन्द्रलुप्त (गज या टाक), खालित्य और रुह्या कहते हैं ॥ १३४ ॥ १३५ ॥

इन्द्रलुप्तकी चिकित्सा ।

इन्द्रलुप्ते शिरां मूर्ध्नि स्निग्धस्विन्न-
स्य मोक्षयेत् । कल्कैः समरिचैर्दिह्या-
च्छिलाकाशीसतुत्थकैः ॥ १३६ ॥

इन्द्रलुप्ररोगमें स्निग्ध और स्विन्न करके मस्तककी शिराको खोले तथा कालीमिरच, मैनागिल, कसौस और तूतिया इनके कल्कका लेप करे ॥ १३६ ॥

कुटत्रटादारुकलकलेपनं वा प्रशस्यते ॥ १३७ ॥

अथवा श्योनाक और देवदारु इनके कल्कका प्रलेप करे ॥ १३७ ॥

तिक्तापटोलीपत्रस्वरसे घृष्टा शमं यति । चिरकालजापि रुह्या नियतं दिनत्रयादेव ॥ १३८ ॥

कडव परवलके पत्तोंके स्वरसको तीन दिन पर्यन्त विसनेसे बहुत दिनोंका पुराना इन्द्रलुप्ररोग भी दूर होजाता है ॥ १३८ ॥

अवगाढपदं वापि म्रक्षयित्वा पुनः पुनः । गुञ्जाफलेश्विरं लिम्पेत्केशभूमिं समंततः ॥ १३९ ॥

चौंटलीके फलोंको पीसकर वाल जमनेके स्थानमें वारंवार गाढा लेप करनेसे वाल फिरसे निकल आते हैं ॥ १३९ ॥

इन्द्रलुभापहोलेपान्मधुना बृहतीरसः । गुञ्जामूलफलं वापि भल्लातक-रसोऽपि वा ॥ १४० ॥

बड़ीकटेरीके रसमें शहद मिलाकर लेप करनेसे अथवा चौंटली और चौंटलीकी जड़को भिलावेके रसमें पीसकर लेप करनेसे इन्द्रलुप्ररोग दूर होता है ॥ १४० ॥

गुञ्जापत्रं विषं तैलं तिलामधुकका-ञ्जिकम् । पतन्त्यनेन नो केशा लेपा-द्रोहन्ति चाद्रुतम् ॥ १४१ ॥

चौंटलीके पत्ते, मीठाविष, तेल, तिल, मुलैठी और कांजी इन सबको एकत्र पीसकर लेप करनेसे वालोंका गिरना बंद हो जाता है और बाल जम जाते हैं ॥ १४१ ॥

गोक्षुरं तिलपुष्पाणि तुल्ये च मधुस-पिषी । शिरः प्रलेपितं तेन केशैः समुपचीयते ॥ १४२ ॥

गोखुरु, तिलके फूल, शहद और घी ये सब समान भाग लेकर एकत्र मिलाकर लेप करनेसे बाल उत्पन्न हो जाते हैं ॥ १४२ ॥

हस्तिदन्तमर्षीं कृत्वा आजंक्षीरं रसाञ्जनम् । लोमान्यनेन जायन्ते नृणां पाणितलेष्वपि ॥ १४३ ॥

हार्थीदाँतकी स्याही बनाकर बकरीके दूधमें मिलाकर और उसमें रसौत डालकर एकत्र घिसकर लेप करनेसे मनुष्योंकी हथेलीतकमें भी बाल जम जाते हैं ॥ १४३ ॥

मधुकेन्दीवरं मृद्धी तैलाज्यगोक्षीर-भृङ्गलेपेन । अचिराद्भवन्ति केशा दृढमूलायता ऋजवः ॥ १४४ ॥

मुलैठी, नीलकमल, दाख, तेल, घी, गायका दूध और भोंगरा इन सबको एकत्र मिलाकर लेप करनेसे थोड़ेही समयमें बाल दृढ मूलवाले हो जाते हैं ॥ १४४ ॥

चतुष्पदानां त्वग्रोमनखशृङ्गास्थिभ-स्मभिः । तैलाक्ता केशभूमिश्चावृ-ता केशयुता भवेत् ॥ १४५ ॥

चौपाये जीवोंकी त्वचा (खाल), रोम (बाल), नाखून, सींग और हड्डी इनकी भस्म करके तेलमें मिलाकर बाल उपजनेके स्थानमें लगानेसे शीघ्र ही बाल निकल आते हैं ॥ १४५ ॥

शीर्यत्सु वापि केशेषु बहुशो वेधये-च्छिराम् । मूर्ध्नि तैलं प्रकुर्वीत न-स्यकर्मविरेचनैः ॥ १४६ ॥

जो बाल विशेष गिरने लगे अथवा गलने लगे तो वारंवार शिराको वेधे तथा शिरमें तेल मले एवं नस्यकर्म और विरेचनकर्म करे ॥ १४६ ॥

मालतीकरवीराग्निक्तमालैर्विपाचि-तम् । तैलमभ्यञ्जने शस्तामिन्द्रलुस-हरं परम् ॥ १४७ ॥

मालती, कनेर, चीता और करंज इनके कल्कके द्वारा तेलको पकावे । इसकी मालिस करनेसे इन्द्र-लुप्र रोग दूर होता है ॥ १४७ ॥

स्नुह्यादिखालित्यहरतैल ।

स्नुहीपयः पयोर्कस्य लाङ्गलीमार्क-
वो विषम् । अजामूत्रं सगोमूत्रं रक्ति-
का सेन्द्रवारुणी ॥ १४८ ॥ सिद्धार्थ-
कं तीक्ष्णगंधा गर्भं दत्त्वा विपाचितम् ।
वह्निना मृदुना पक्वं तैलं खालित्य-
नाशनम् ॥ १४९ ॥ कूर्मपृष्ठसमाना-
पि रूक्षायारोमतस्करा । दिग्धा सा-
नेन जायेत ऋक्षशारीरलोमशा १५० ॥

थूहरका दूध, आकका दूध, कलिहारी, भौंगरा,
मीठा विष, बकरीका मूत्र, गोमूत्र, चौटली, इन्द्रायण,
सफेद सरसों और वच इनके कल्फके द्वारा मन्द
मन्द अग्निसे तेलको पकावे । इस तेलको मालिश
करनेसे खालित्य रोग दूर होता है । जिस मनुष्यका
मस्तक कच्छपकी पीठके समान भी हो वह
भी इस तेलका नित्य सेवन करनेसे रीछके शरीरके
समान बालोवाला होजाता है ॥ १४८ ॥ १४९ ॥
॥ १५० ॥

यष्टीमधुकाद्यतैल ।

तैलं सयष्टीमधुकैः क्षीरे च त्रैफलैः
शृतम् । नस्ये दत्तं जनयति केशान्
श्मश्रूणि चाप्यथ ॥ १५१ ॥

मुलैठीके कल्फ, त्रिफलेके छाथ और दूधके द्वारा
तेलको पकावे । इस तेलके द्वारा नस्य देनेसे केश
और श्मश्रु आदि उत्पन्न हो जाते है ॥ १५१ ॥

पालितके लक्षण ।

क्रोधशोकश्मकृतः शरीरोष्मा शि-
रोगतः । पित्तञ्च केशान्पचति पलितं
तेन जायते ॥ १५२ ॥

अत्यन्त क्रोध, शोक और परिश्रम करनेसे उत्पन्न
हुई शरीरकी गरमी पित्तके साथ मिलकर मस्तकमे
प्राप्त होकर बालोंको पका देती है अर्थात् सफेद कर
देती है उसको पलितरोग कहते है ॥ १५२ ॥

पालितकी चिकित्सा ।

धात्रीफलं द्वयं पथ्ये द्वे तथैकां विभी-
तकीम् । लोहचूर्णस्य कर्षन्तु दशार्द्धं
चूतमज्जतः ॥ १५३ ॥ पिष्ट्वा लोहमये
पात्रे स्थापयेदुषितं निशाम् । लेपो-
ऽयं हन्ति न चिरादकालपालितं म-
हत् ॥ १५४ ॥

आमले २, हरड २, बहेडा १, लोहेका चूर्ण १
तोला और आमकी गुठली मींग ५ तोले इन सबको
एकत्र लोहेके पात्रमे घिसकर एक रात्रिभर रक्खा
रहने देवो फिर दूसरे दिन इसका लेप करनेसे असम-
यमे श्वेतहुए बाल न्यामवर्ण हो जाते है १५३ ॥ १५४ ॥

अयोरजो भृङ्गराजस्त्रिफला कृष्णमृ-
त्तिका । स्थितमिक्षुरसे मासं समूलं
पालितं जयेत् ॥ १५५ ॥

लोहेका चून, भौंगरा, त्रिफला और काली मिट्टी
इन सबको एकत्र पीसकर ईखक रसमे मिलाकर एक
महीने तक गाड देवे । फिर उसका लेप करनेसे जड़
सहित सफेद बाल काले होजाते है ॥ १५५ ॥

लोहमलामलकल्कैः सजपाकुसुमैर्न-
रः सदा स्नायी । पलितानीह न पश्य-
ति गङ्गास्नायीव नरकाणि ॥ १५६ ॥

लोहेका चून, आमलोंका कल्फ और गुडहलके
फूल इनके द्वारा जो मनुष्य सदैव स्नान करता है वह
कदापि पलितरोगसे पीडित नहीं होता । जिसप्रकार
गंगामे स्नान करनेवाला मनुष्य नरकको नहीं देखता
॥ १५६ ॥

त्रिफलानीलिकापत्रं लोहभृङ्गरजः
समम् । आविमूत्रेण संयुक्तं कृष्णीक-
रणसुत्तमम् ॥ १५७ ॥

त्रिफला, नीलके पत्ते, लोहचून और भौंगरा इन
सबको भेडके दूधमे पीसकर लेप करनेसे बाल काले
होजाते है ॥ १५७ ॥

निम्बबीजतैल ।

निम्बस्य बीजानि हि भावितानि

भृङ्गस्य तोयेन तथाऽशनस्य । तैल-
श्च तेषां विनिहन्ति नस्याद्दुग्धान्न-
भोक्तुः परितं समूलम् ॥ १५८ ॥

नीमके वीजोको भांगरेके रसमे और विजयसारके रसमे भावना देवे । फिर उन वीजोका तेल निकल-
वाकर उस तेलके द्वारा नास देवे और इसपर दूध चावलका भोजन करे तो इससे जडसहित वाल काले होते है ॥ १५८ ॥

केतक्यादितैल ।

केतकं भृंगनीलीकाः पार्थपुष्पं सर्वा-
जकम् । सहचरं तिलः कृष्णा पिण्डी-
तकमयोरजः ॥ १५९ ॥ अमृता चो-
त्पलं श्यामा त्रिफलापन्नकर्दमैः ।
कल्कैरेभिः पचेत्तैलं त्रिफलाक्वाथमा-
र्कवैः ॥ १६० ॥ अकालपलितं हन्ति
नाशयेदुपजिह्विकाग्नौ ! केशाश्च तेन
जायन्ते स्निग्धाश्चाञ्जनसन्निभाः १६१ ॥

केतकी, भांगरा, नील, अर्जुनके फूल, अर्जुनके वीज, पियावाँसा, तिल, पीपल, मैनफल, लोहेका चून, गिलोय, कमल, शारिवा, त्रिफला, पद्मास और कीच इनके कल्कके द्वारा त्रिफलेके क्वाथ और भांगरेके क्वाथमे तेलको पकावे । यह तेल-विना सम-
यही वालोंके सफेद होनेको नष्ट करता है । इससे उपजिह्विकारोग दूर होता है और वाल चिकने तथा अञ्जनके समान काले होजाते है ॥ १५९ ॥ १६० ॥ १६१ ॥

नीलविन्दुतैल ।

अञ्जनं मधुकं श्यामा ताक्षर्यजं शा-
रिवोत्पलम् । त्रिफला नीलिकापत्रं
काशीसं मुस्तकं तिलाः ॥ १६२ ॥
आम्रास्थि तालपत्रश्च विभीतकफलं
तथा । जम्बुवाभ्राजुनपुष्पाणि कू-
र्मपित्तं सत्तुथकम् ॥ १६३ ॥ शिंशिपा
पृतकेशी च मार्कवश्च त्रिकण्टकम् ।
पृथक् कर्षसमान् भागांस्तथा लो-
हरजः समम् ॥ १६४ ॥ तैलप्रस्थमजा-

क्षीरं धात्रीभृङ्गरसाढकम् । अक्षकस्य
रसस्यापि लोहपात्रे विपाचयेत् १६५
पक्वं तल्लोहभाण्डस्थं शिरसोभ्य-
ञ्जनस्ययोः । यत्नेन योजयेत्तैलं
वराङ्गे विनिपातयेत् ॥ १६६ ॥ पत-
न्ति विन्दवो यत्र कृष्णं तदुपजायते ।
भवन्ति कुटिलाः शीघ्रं कंचाः षट्-
पदकोपमाः ॥ १६७ ॥ खालित्यं प-
लितश्चैव इन्द्रलुप्तश्च नाशयेत् । मे-
ध्यं चक्षुष्यमायुष्यं बलवर्णकरं परम् ।
नीलविन्द्विति विख्यातं विश्वामि-
त्रेण पूजितम् ॥ १६८ ॥

अजन, मुलैठी, अनन्तमूल, रसौत, शारिवा, कुमुद, त्रिफला, नीलके पत्ते, कसीस, नागरमोथा, तिल, आमकी गुठली, ताढके पत्ते, वहेडा, जामुन, आग और अर्जुनके फूल, बलुएका पित्त, तृतिया सीसम, भूतकेशी (नीला सम्हाल) भांगरा और गोखुरु ये प्रत्येक औषधि एक एक तोला लेवे और लोहेका चून सबके वरावर लेवे और तिलका तेल १ प्रस्थ, वकरीका दूध १ आढक, आमलोंका स्वरस १ आढक, भांगरेका रस १ आढक, और वहेडेका रस १ आढक लेकर सबको लोहेके पात्रमे एकत्रित करके यथाविधिसे मन्द मन्द आग्निसे पकावे । इस प्रकार पकाये हुए तेलको लोहेके पात्रमेसे इस तेलको अच्छी तरह शिरमें मले और नास देवे । जहाँ जहाँ इसकी विन्दु गिरती है वही वही वह स्थान काला होजाता है । इससे शीघ्रही वाल भौरके समान काले होजाते है तथा खालित्य, पलित और इन्द्रलुप्त रोग नष्ट होता है । यह तेल मेधाको बढ़ानेवाला, नेत्रोंको हितकारी बल और वर्णको उज्ज्वल करनेवाला है । इस नील-
विन्दु नामक तैलको विश्वामित्रने निर्माण किया है ॥ १६२-१६८ ॥

काश्मर्याद्यतैल ।

काश्मर्याजुन-जंबू-सहचरकुसुमानि
चूतफलमध्यम् । पिण्डीतकफलत्रिफ-
लातैलस्य पलाष्टकं विपाचयेत् ॥ १६९ ॥
दत्त्वा पयश्चतुर्गुणमंबुभृङ्गस्य मधुफ-

लरत्नमिश्रम् । सिद्धेन तेन दिग्धा भ-
वन्ति धवलाप्यलिकुलनिभाः ॥ १७० ॥
कुन्देन्दुशंखधवलैश्चितमपि केशैः
शीर्षं मासेन । अञ्जनभृङ्गश्यामं भवति
सदा नस्यनोऽद्भुतम् ॥ १७१ ॥

कुम्भर, अर्जुन, जामुन और पियावासा इन सबके फूल, आमकी गुठलीकी मींगमैनफल और त्रिफला ये प्रत्येक औषधि चार चार तोले लेकर कलक बनावे फिर इस कलकको आठ पल तिलके तेल, ३२ पल दूध, ३२ पल भांगरका रस और ३२ पल महुवेके फलोंके रसमें मिलाकर पकावे । जब तेल सिद्ध हो जाय तब उतार लेवे। इस तेलको लगानेसे सफेद बाल भी भौरके समान काले हो जाते हैं । इस तेलकी सदैव नाम देनेसे कुन्द, चन्द्रमा और शंखके समान शिरो-तेल बाल भी एक महीनेमें अञ्जन और भौरके समान काले हो जाते हैं और वह मनुष्य सां वर्षकी आयुवाला होता है ॥ १६९ ॥ १७० ॥ १७१ ॥

केशरञ्जनतैल ।

काश्मर्या मूलमादौ सहचरकुलुमं
केतकीनाश्च मूलं सायश्चूर्णं सभृङ्गं
त्रिफलजलयुतं तैलमेभिः पचेद्यः ।
कृत्वा लोहस्य भाण्डे क्षितितलनि-
हितं स्थापयेन्मासगकं केशाः का-
शप्रकाशा भ्रमरकुलनिभा अक्षणादे-
वमुक्ताः ॥ १७२ ॥

कुम्भरकी जड़, पियावामेके फूल, केतकीकी जड़ लोहेका चून, भांगरेका रस और त्रिफलका काथ इन सबके साथतेलको पकावे । फिर उस तेलको लोहेके पात्रमें करके पृथिवीमें एक महीने तक गाड़ देवे। इस तेलको लगानेसे बाल काशके समान कालियुक्त और भौरके समान काले हो जाते हैं ॥ १७२ ॥

केतक्याद्यतैल ।

केतकी त्रिफला दावीं तत्फलं सदन-
त्तचः । आम्रास्थिमज्जकुष्ठश्च तिला
भृङ्गरमोजनम् ॥ १७३ ॥ पिण्डीतक-
सयश्चूर्णं नीलीपंकश्च पद्मजम् । कलकै
रेनेः पनेत्तैलं वचाभृङ्गरसेन तु ॥ १७४ ॥

शिरोऽभ्यंगात्त्रणश्यन्ति दारुणं चे-
न्द्रलुप्तकम् । अकालपलितं कंडूं ल-
तिकां दद्रुमेव च ॥ १७५ ॥ करोति
कुञ्चितान्केशान् भ्रमरोदरसन्निभा-
न् । केतक्याद्यभिदं नाम्ना विदेहा-
दिप्रकीर्तितम् ॥ १७६ ॥

केतकी, त्रिफला, दारुहलदी, दारुहलदीके फल, मैनफलकी छाल, आमकी गुठलीकी मींग, कूठ, तिल, भांगरा, रसौत, दूसरे प्रकारका मैनफल, लोहेका चून, नील, कीचड़ और कमल इनके कलकके द्वारा वच और भांगरेके रसमें तेलको पकावे । इस तेलको गिरभे मलनेसे दारुण इन्द्रलुप्त, अकालपलित (विना ही समय बालोका पकना), खुजली, लूता और दद्रु ये सब रोग नष्ट होते हैं। यह तेल-बालोको कुंचित और भौरके उदरके समान काला करते हैं । यह केतकाद्यतैल विदेहादि आचार्य्यने निर्माण किया है ॥ १७३--१७६ ॥

मयूरपित्ताद्यतैल ।

शिखिपित्तविषाम्रास्थि-मदयन्त्यञ्ज-
नोत्पलैः । सनीलभृङ्गकाशीसैस्त-
क्रे तैलं विपाचयेत् ॥ १७७ ॥ लोह-
भाण्डे स्थितं मासमकालं पलितं
जयेत् ॥ १७८ ॥

मोरका पित्त, विष, आमकी गुठली, मोतिय, अञ्जन, कमलनील, भांगरा और कसीस इनके कलक के द्वारा तक्रम तेलको पकावे । फिर इसको लोहेके पात्रमें करके छ. महीने तक गाड़ देवे । यह तेल-सफेद बालोंको काला करता है ॥ १७७ ॥ १७८ ॥

मधुकैतल ।

क्षीरात्समार्कवरसाद्विप्रस्थं मधुके प-
ले । विपचेत्तैलकुडवं तन्नस्यं पलिता-
पहम् ॥ १७९ ॥

उत्तम गायका दूध २ प्रस्थ, भांगरेका रस २ प्रस्थ, और मुलठीका कलक ४ तोले इन सबको एकत्र करके एक कुडव तेलको पकावे । इस तेलकी नास देनेसे पलितरांग (बालोंका श्वेत होना) दूर होता है ॥ १७९ ॥

प्रपौण्डरीकाद्यतेल ।

प्रपौण्डरीक-मधुकपिप्पलीचन्दनोत्प-
लैः । सिद्धं धात्रीरसे तैलं नस्येना-
भ्यञ्जनेन वा । सर्वान्मूर्द्धगतान्दन्ति
पलितानि च शीलितम् ॥ १८० ॥

पुण्डोर्या, मुलेठी, पीपल, चन्दन और कमल
इनके कलकको आमलोक रसमें ताल वर विविधवृक्ष
तेलको पकावे । इस तेलको नस्य और अभ्यंगके
द्वारा प्रयोग करनेसे मन्तकके सम्पूर्ण संकर पाल
काले होजाते हैं ॥ १८० ॥

अग्निरोहिणीके लक्षण ।

कक्षाभागेषु ये स्फोटा जायन्ते मां-
सदारुणाः । अन्तर्दाहञ्जरकरा दी-
प्तपावकसन्निभाः ॥ १८१ ॥ सताहाद्वा-
दशाहाद्वा पक्षाद्वा प्रन्ति मानवम् ।
तामाग्निरोहिणीं विद्यादसाध्यां स-
न्निपातिकां ॥ १८२ ॥

कायके मांसको विदीर्ण करनेवाले जो फोडे
उत्पन्न होते हैं उनके होनेमें अन्तर्दाह और ज्वर होता
है तथा वह फोटे प्रज्वलित अग्निके समान होते हैं।
यह रात, पित्त और कफकी उत्पन्ननामें यथाक्रमसे
सात दिन, या बारह दिन अथवा पन्द्रह दिनमें मनु-
ष्यको मार देते हैं। इसको सन्निपातोद्भव अग्निरोहिणी
कहते हैं। यह असाध्य है ॥ १८१ ॥ १८२ ॥

अग्निरोहिणीकी चिकित्सा ।

पित्तवीसर्पविधिना साधयेदग्निरोहि-
णीम् । रोहिण्यां लङ्घनं कुर्याद्रक्त-
मोक्षं विरुक्षणम् । शरीरस्य च संशु-
द्धिस्तां त्यजेद्वर्धितां पुनः ॥ १८३ ॥

पित्तविसर्पोक्त चिकित्साके अनुसार अग्निरोहि-
णीकी चिकित्सा करे । अग्निरोहिणीरोगमें प्रथम
लंघन करावे, रक्तमोक्षण (किसी प्रकारसे रुधिर
निकलवावे) करावे और व्रत विरेचनादिसे शरीरको
शुद्ध करे । जो वह अग्निरोहिणी विशेष बढजाय तो
इसकी चिकित्सा न करे ॥ १८३ ॥

वल्मीकका निदान तथा लक्षण ।
ग्रीवां सकक्षां करपाददेशे सन्धौ गले
वा त्रिभिर्व दोषैः । अस्थिः सबल्मी-
कवदक्रियाणां जातः क्रमणैव गतः
प्रवृद्धिम् ॥ १८४ ॥ सुखैरनेकैः सुन-
तोद्वद्विर्विसर्पवत्सर्पति चोन्नताग्रैः ।
वल्मीकमाहुर्भिषजो विकारं निष्प्र-
त्यनीकं चिरजं विशेषात् ॥ १८५ ॥

ग्रीवा, कंधे, कोल, हाथ, पाँव, सन्धि और
गलेमें तीनों दोषोंके गुपित होनेसे सौंपकी वाँगीके
समान गोंठ उत्पन्न हो तो उसकी चिकित्सा न करनेसे
वह धीरे २ बढकर फैल जाती है तब उसके बहुतसे
मुग हो जायँ तथा उनमें राध बहे, तोउनेसरीखी
पीटा हो फिर वह मुखपर क्रिचित् ऊँची होकर
विसर्पके समान फैलजाती है, इसको वल्मीकरोग
कहते हैं । यह पुराना होजानेपर असाध्य होजाता
है ॥ १८४ ॥ १८५ ॥

वल्मीककी चिकित्सा ।

शस्त्रेनोत्कृत्य वल्मीकं क्षाराग्निभ्यां
प्रसाधयेत् । विधानेनार्जुदोक्तेन शो-
धयित्वा च रोपयेत् ॥ १८६ ॥

वल्मीकको जखमे चौरकर क्षारसे तथा अग्निसे
दूर करे । अर्जुदके समान प्रथम जोधन कर पश्चात्
भरे ॥ १८६ ॥

वल्मीकन्तु भवेत्तस्य नातिवृद्धस्य
मर्मजम् । तत्र संशोधनं कृत्वा शो-
णितं मोक्षयेद्विपक्व ॥ १८७ ॥

जो वल्मीकरोग अत्यन्त वृद्धको नहीं हुआ
हो और मर्मस्थानमें उत्पन्न भी न हुआ हो तो प्रथम
वैद्य संजोधन करके पश्चात् रुधिर निकलवावे ॥ १८७ ॥

कुलित्थिकानां मूलैश्च गुडूच्या लव-
णेन वा । आरग्वधस्य मूलैश्च दन्ती-
मूलैस्तथैव च ॥ १८८ ॥ श्यामामू-
लैः सपल्लैः सक्तुभिश्चैः प्रलेपयेत् ।

सुस्निग्धैश्च सुखोष्णैर्वा भिषक्तमुपना-
हयेत् ॥ १८९ ॥ पक्वं वातं विजानी-
याद्गतीः सर्वा यथाक्रमम् । अभिज्ञा-

य ततश्चित्वा प्रदहेन्मतिमान्निष-
क् ॥ १९० ॥ संशोधय दुष्टमांसानि
क्षारेण प्रतिसारयेत् । व्रणं विशुद्धं
विज्ञाय रोपयेन्मतिमान्निषक् ॥ १९१ ॥

कुलथीकी जड, गिलोय, सैधानमक, अमलतासकी
जड, दन्तीकी जड, निसोतकी जड, मांस और सक्त
इनको मिलाकर बल्मीकपर प्रलेप करे और अत्यन्त
स्निग्धपदार्थोंकी पुलिस बनाकर उससे कुछ २ गरम
करके उसके ऊपर पट्टी बाँध देवे । जब बल्मीक पक
जाय तब उसको क्रमसे राधकी गतिको विचारकर
शखसे चीरकर बुद्धिमान् वैद्य लेपकर दूषित मांसको
साफ करके पश्चात् क्षार डालकर प्रतिसारण करे ।
व्रणको साफ समझकर फिर वैद्य रोपण औपधियोंसे
भरे ॥ १८८-१९१ ॥

अनःशिलाद्यतैल ।

अनःशिलालभलात-सूक्ष्मैला-गुरुच-
न्दनैः । जातिपल्लवतक्रैश्च निम्बतैलं
विपाचयेत् ॥ बल्मीकं नाशयेत्तद्वि-
बहुच्छिद्रं बहुव्रणम् ॥ १९२ ॥

अनःशिल, हरिताल, भिलावे, छोटी इलायची,
अगर, चन्दन और चमेलीके पत्ते इनके कलकके द्वारा
तक्र (मट्टा या छोंछ) में नीमके तैलको पकावे । यह
तेल बहुत छिद्रोवाले और बहुत व्रणोवाले बल्मीकको
नष्ट करता है ॥ १९२ ॥

बल्मीकके असाध्य लक्षण ।

पाणिपादोपरिष्ठात्तु छिद्रैर्वहुभिरा-
वृतम् । बल्मीकं यत्सशोफं श्याद्वर्ज्यं
तत्तु विजानता ॥ १९३ ॥

हाथ अथवा पाँवके ऊपर जो बल्मीक छिद्रोंसे
व्याप्त हो और जिसमें सूजन आगई हो ऐसा बल्मीक-
रोग असाध्य समझकर त्याग देवे ॥ १९३ ॥

गुदभ्रंशके लक्षण ।

प्रवाहणातिसाराभ्यां निर्गच्छति गु-
दो बहिः । रूक्षदुर्बलदेहस्य गुदभ्रंशं
तमादिशेत् ॥ १९४ ॥

रूखे और दुर्बल शरीरवाले मनुष्यके किंचकर
बल पूर्वक मल त्यागनेसे तथा प्रवाहिका और अति-
सारके होनेसे गुदा बाहरको निकल आती है उसको
गुदभ्रशरोग कहते हैं हिन्दीमें "काँच" कहते हैं १९४ ॥

गुदभ्रंशकी चिकित्सा ।

गुदभ्रंशे गुदं स्वित्रं स्नेहेनाक्तं प्रवेश-
येत् । प्रविष्टं रोहयेद्यत्ताद्व्यसच्छिद्र-
चर्मणा ॥ १९५ ॥

गुद भ्रशरोगमें गुदाको सेककर घीसे अथवा तेलसे
काँचको चुपडकर हाथसे भीतरको प्रवेश कर देवे और
प्रवेश करनेके पश्चात् छिद्रयुक्त बलके चमड़ेसे उसको
यत्नपूर्वक रोक देवे ॥ १९५ ॥

पद्मिनीकोमलं पत्रं यः खादेच्छर्करा-
न्वितम् । एतन्निश्चित्य निर्दिष्टं न तस्य
गुदनिर्गमः ॥ १९६ ॥

कमलिनीके कोमल पत्तोंको मिश्रीके साथ भक्षण
करनेसे गुदाका निकलना बंद होजाता है ॥ १९६ ॥

गुदञ्च गव्यवसया म्रक्षयेदसकृन्नरः ।
दुष्प्रवेशो गुदभ्रंशो विशत्याशु न
संशयः ॥ १९७ ॥

गुदापर गायकी चर्बी लगानेसे दुष्प्रवेश गुदा भी
भीतरको प्रविष्ट होजाती है ॥ १९७ ॥

मूषकाणां वसाभिर्वा गुदभ्रंशे प्रले-
पनम् । सुस्विन्नमूषिकामांसेनाथ-
वा स्वेदयेद्गुदम् ॥ १९८ ॥

काँचके ऊपर चूहेकी चर्बी चुपडनेसे अथवा चूहेके
मांसका बफारा देनेसे काँच निकलनी बंद होजाती
है ॥ १९८ ॥

वृक्षाम्लानलचांगेरी बिल्वं पाठाय-
वाप्रजम् । तत्रेण शीलयेत्पायुभ्रंशा-
त्तोऽनलदीपनम् ॥ १९९ ॥

विषांवल, चीता, चांगेरी, बेलगिरी, पाठ और
जवाखार इनको तक्रमे पीसकर पान करनेसे गुदभ्रं-
शरोग दूर होता है और अग्नि दीपन होती है ॥ १९९ ॥

मूषकाद्यतैल ।

मूषिकाकुडवं मांसं चित्रकस्य पलं तथा । दशमूलपलानाञ्च पलं भृङ्गा-
तकस्य च ॥ २०० ॥ त्रिफलायाः प-
लश्वैषां कल्कं दत्त्वा चतुर्गुणे । क्षीरे
तैलं पचेत्प्रस्थमभ्यङ्गाञ्च प्रशाम्यति
॥ २०१ ॥ गुदनिस्सरणं शूलं दुष्टव्र-
णविशोधनम् । मूषकाद्यमिदं तैलं
कृष्णात्रेयेण पूजितम् ॥ २०२ ॥

चूहेका मांस १ कुडव परिमाण, चीता ४ तोले,
दशमूलकी औषधिये ४ तोले, भिलावे ४ तोले और
त्रिफला ४ तोले इनका कल्क बनाकर चार प्रस्थ
दूधमें एक प्रस्थ तेलको पकावे । इस तेलकी मालिस
करनेसे गुदाका निकलना, शूल और दुष्टव्रण दूर
होते हैं एवं दुष्टव्रण शुद्ध होता है । यह मूषिकाद्यतै-
ल-कृष्णात्रेय करके पूजित किया हुआ है ॥ २०० ॥
॥ २०१ ॥ २०२ ॥

द्वितीयमूषकाद्यतैल ।

मूषिकामांसकुडवं दशमूलं पलोन्मि-
तम् । चित्रस्य द्वे पले वापि निःक्वा-
थ्याष्टगुणेऽम्भसि ॥ २०३ ॥ पादशे-
षेण तेनैव तैलप्रस्थं पयः समम् ।
जीवनीयप्रतीवापं पाचयेन्मृदुनाग्नि-
ना ॥ २०४ ॥ अभ्यङ्गान्नाशयत्याशु
गुदभ्रंशं सुदारुणम् । भगन्दरं गुदे
शूलं नाडीदुष्टव्रणापहम् ॥ २०५ ॥

चूहेका मांस १ कुडव परिमाण, दशमूलकी औ-
षधिये ४ तोले और चीता आठ तोले इनको अठगुने
जलमें पकावे । जब पकते २ जल चौथाई भाग
वाकी रहजाय तब उतारकर छान लेवे । फिर इसमे
तिलका तेल एक प्रस्थ और उत्तम गायका दूध १
प्रस्थ तथा जीवनीयगणकी औषधियोंके कल्क डाल-
कर मन्द २ अग्निसे पकावे । इस तेलकी मालिश
करनेसे दारुण गुदभ्रंशरोग नष्ट होता है तथा भग-
न्दर, गुदशूल, नाडीव्रण और दुष्टव्रण नष्ट होते हैं
॥ २०३ ॥ २०४ ॥ २०५ ॥

तृतीयमूषकाद्यतैल ।

निरन्त्रं मूषिकं पक्त्वा पञ्चमूलपयोयु-
तम् । तैलं वातहरैः सिद्धं गुदभ्रंश-
हरं परम् ॥ २०६ ॥ तुल्यमंशं समा-
दाय पञ्चमूलांबुमांसयोः । क्षीरपा-
कविधानेन विपाच्यैतत्समाहितः ।
पश्चाद्वातहरैः कल्कैः पक्तव्यं मूषका-
दिकम् ॥ २०७ ॥

आंतेरहित चूहेका मांस लेकर पंचमूलके काथ और
दूधमे वातनाशक औषधियोंके कल्कके द्वारा तेलको
पकावे । यह तेल गुदभ्रंशको अवश्य नष्ट करता है ।
इसमे पंचमूलका काथ और चूहेका मांस बराबर लेना
चाहिये और क्षीरपाककी विधिसे पकाना चाहिये ।
फिर वातनाशक औषधियोंके कल्कसे इस मूषकाद्यतै-
लको पकावे ॥ २०६ ॥ २०७ ॥

चतुर्थमूषकाद्यतैल ।

मूषकाणां पलशतं जलद्रोणे विपाच-
येत । पादशेषे पचेत्तैलं दुग्धं तैलच-
तुर्गुणम् ॥ २०८ ॥ मूषकाणां शिरः
कल्कं वस्तावभ्यञ्जने हितम् । गुद-
निस्सरणे शूले रक्तस्रावे च तद्धि-
तम् ॥ २०९ ॥

चूहेका मांस १०० पल लेकर एक द्रोण जलमे प-
कावे । जब पकते २ चौथाई भाग वाकी रहजाय तब
उतारकर छान लेवे । फिर इसमे २ प्रस्थ तेल और ४
चार प्रस्थ दूध एवं चूहोके शिरका कल्क डालकर
पकावे । इस तेलको वस्ति और अभ्यग कर्ममे प्रयोग
करनेसे गुदाका निकलना, रुधिरस्राव और गुदज
शूल नष्ट होता है ॥ २०८ ॥ २०९ ॥

शूकरदंष्ट्रके लक्षण ।

सदाहो रक्तपर्यन्तस्त्वक्पाकी तीव्र-
वेदनः । कङ्कमाञ्ज्वरकारी च स
स्याच्छूकरदंष्ट्रकः ॥ २१० ॥

जो सूजन, दाह सहित, लाल किनारोंवाली हो
तथा जिसकी त्वचा पकनेवाली, जिसमें अत्यन्त

पीडा और खुजली एवं ज्वर हो उसको सूकरदंष्ट्र (सूअर डाढ) कहते हैं ॥ २१० ॥

सूकरदंष्ट्रकी चिकित्सा ।

सर्षपरजनीकल्कस्तालमूलीसंयुतो
लेपात् । शमयाति सूकरदंष्ट्रं पिडि-
कादाहान्वितं पुंसाम् ॥ २११ ॥

सरसो, हलदी और मुसली इनको एकत्र जलमें पीसकर प्रलेप करनेसे सूकरदंष्ट्र और दाहयुक्त पिडिका शमन होती है ॥ २११ ॥

भृङ्गराजस्य मूलस्य रजत्या सहित-
स्य च । चूर्णञ्च सहसा लेपाद्ब्राह्मि-
जनाशनम् ॥ २१२ ॥

भाँगरेकी जड और हलदीको जलमें पीसकर लेप करनेसे सूकरदंष्ट्र दूर होता है ॥ २१२ ॥

रजनीमार्कवमूलं पिष्टं शीतेन वारि-
णा तुल्यम् । हन्ति विसर्पं लेपाद्ब्रा-
ह्मदशनाह्वयं घोरम् ॥ २१३ ॥

हलदी और भाँगरेकी जडको शीतल जलमें पीसकर लेप करनेसे विसर्परोग और सूकरदंष्ट्र नष्ट होता है ॥ २१३ ॥

सूर्यावर्त्तजटां सूर्यवारणोत्पाट्य
बुद्धिमान् । पिष्ट्वा भृङ्गांबुना लेपाद्ब्रा-
ह्मदशनाशनम् ॥ २१४ ॥

बुद्धिमान् मनुष्य आदित्यवारके दिन हुलहुलकी जडको उखाडकर भाँगरेके जलमें पीसकर लेप करे तो सूकरदंष्ट्र नष्ट होता है ॥ २१४ ॥

विसर्पोक्तः प्रतीकारः कार्य्यः सूक-
रदंष्ट्रयोः ॥ २१५ ॥

इस सूकरदंष्ट्ररोगमें विसर्पके समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २१५ ॥

मेध्याविकृतैल ।

मूलकं बीजमुद्धृत्य चोन्मत्तकदलानि
तु । सूर्यावर्त्तशुक्राख्याञ्च मेध्यावी
रसपाचितम् ॥ २१६ ॥ तैलं मेध्या-

विकं नाम वराहद्विजनाशनम् । क-
ण्डूकुष्ठप्रशमनं कृच्छ्रं दद्रुविनाशन-
म् ॥ बलवर्णकरञ्चैव कृष्णात्रेयेण
भाषितम् ॥ २१७ ॥

मूलीके बीज, धतूरके पत्ते, हुलहुल और शुआ ठोडी इनके कल्कके द्वारा ब्राह्मीके रसमें तेलको पकावे । यह तेल-सूकरदंष्ट्रको अवश्य दूर करता है तथा खुजली, कोढ़, मूत्रकृच्छ्र और दद्रुको दूर करता है बल और वर्णको बढ़ाता है इसको कृष्णात्रेयने कहा है ॥ २१६ ॥ २१७ ॥

परिवर्त्तिकाके लक्षण ।

मर्दनात्पीडनाद्वापि तथैवाप्यभिघा-
ततः । मेदूचर्म यदा वायुर्भजते स-
र्वतश्चरन् ॥ २१८ ॥ तदा वातोपसृ-
ष्टत्वाच्चर्म तत्परिवर्त्तते । सवेदनं स-
दाहञ्च पाकं च ब्रजति क्वचित् ॥ २१९ ॥
मणेरधस्तात्कोषश्च ग्रन्थिरूपेण ल-
म्बते । परिवर्त्तिकेति तां विद्यात्स-
रुजां वातसम्भवाम् ॥ सकण्डूकाठि-
ना वापि सैव श्लेष्मसमुत्थिता ॥ २२० ॥

लिंगको मर्दन करनेसे या पीडित करनेसे अर्थात् दवानेसे अथवा किसीप्रकारकी चोटके लगजानसे व्यान वायु कुपित होकर लिंगके चर्ममें प्राप्त होकर चारो ओर विचरण करती है तब मणि और लिंगके अग्रभागका चर्म वायुके लगनेसे फ़िर जाता है अर्थात् अलग होजाता है और सुपारीके नचिे गौठसी होकर लटकती है उसमें पीडा और दाह होती है, कोई कोई पक भी जाती है उसको परिवर्त्तिका कहते हैं । जो यह वातसे हो तो उसमें पीडा अधिक होती है और जो कफज हो तो इसमें खुजली अधिक और कठिनता होती है ॥ २१८ ॥ २१९ ॥ २२० ॥

परिवर्त्तिकाकी चिकित्सा ।

परिवर्त्ती घृताभ्यक्ता सुस्विन्नामुपना-
हयेत् । त्रिरात्रं पञ्चरात्रं वा वातघ्नैः
साल्वनादिभिः ॥ २२१ ॥ ततोऽभ्य-
ज्य शनैश्चर्मं वेशयेत्पीडयेन्मणिम् ।

प्रविष्टे चर्मणि मणौ स्वेदयेदुपना-
ह्नैः ॥ २२२ ॥ दद्याद्वातहरान्बस्ती-
न्स्निग्धान्यन्नानि भोजयेत् ॥ २२३ ॥

परिवर्तिकाको घी चुपडकर अच्छे प्रकारसे उपनाह
स्वेद देव और तीन रात्रितक अथवा पांच रात्रितक
वातको हरनेवाले शाल्वनादि कलकोंकी पट्टी बांधे,
फिर त्वचाको घीसे चुपडकर धीरे धीरे बढाकर लिगकी
मणिको दवावे कि, जिसेसे मणि त्वचाके भीतर
चली जाय । मणिनो त्वचामे प्रवेश कराकर पश्चात्
उपनाह स्वेद देकर वातनाशक पिचकारी लगावे तथा
रोगीको स्निग्ध अन्न भोजनेके लिये देवे ॥ २२१ ॥
॥ २२२ ॥ २२३ ॥

अवपाटिकाके लक्षण ।

अल्पीयःखां यदा हर्षाद्बलाद्बद्धे-
त्स्त्रियं नरः । हस्ताभिघातादथवा
चर्मण्युद्धर्त्तते बलात् ॥ यस्यावपा-
ट्यते चर्मं तां विद्यादवपाटिका-
म् ॥ २२४ ॥

अखण्डितयोनिवाली अथवा जिस स्त्रीकी
योनिका छिद्र बहुत छोटा हो ऐसी योनिवाली स्त्रीसे
हर्षके साथ बलपूर्वक प्रसंग करनेसे अथवा हस्तमैथु-
नादि करनेसे या हाथकी चोटके लगनेसे या
या जोरसे लिगके चर्मको उलटनेसे अथवा मर्दन
करनेसे या दवानेसे अथवा वीर्यके वेगको रोकनेसे
लिगके बन्द होनेकी त्वचा जगह जगहसे चिरजाती
है उसको अवपाटिकारोग कहते हैं ॥ २२४ ॥

वानात्परुषरूक्षाभा सूक्ष्ना कृष्णा रु-
गन्विता । पित्तात्सपीतारक्ताभा दा-
हतृष्णासमन्विता । श्लैष्मिकी कठि-
ना स्निग्धा कण्डूमत्यल्पवेदना ॥ २२५ ॥

यह अवपाटिकारोग जो वातसम्बन्धीय हो तो
खरखरा, रूखा, पतला, काला और वेदनायुक्त होता
है । पित्तकी उल्वणता हां तो यह पीला, लाल, दाह
और तृपायुक्त होता है और जो यह कफ सम्बन्धीय
हो तो कठिन, चिकना, खुजली और अल्प पीडा-
युक्त होता है ॥ २२५ ॥

अवपाटिकाकी चिकित्सा ।

स्नेहस्वेदैस्तथैवैनां चिकित्सेदवपाटि-
काम् ॥ २२६ ॥

वैद्य स्नेहो तथा स्वेदोसे अवपाटिकाकी चिकित्सा
करे ॥ २२६ ॥

निरुद्धप्रकशके लक्षण ।

वातोपसृष्टे भेट्टे च चर्म संश्रयते
मणिम् । मणिश्चर्मोपनद्धस्तु मूत्रस्रो-
तो रुणाद्वि च ॥ २२७ ॥ निरुद्धप्र-
कशे तस्मिन्मन्दधारमवेदनम् । मू-
त्रं प्रवर्त्तते जन्तोर्मणिर्विप्रियते न
च ॥ निरुद्धप्रकशं विद्यात्सहजं
वातसंभवम् ॥ २२८ ॥

लिगमें वातका प्रकोप होकर लिगका चर्म सुपारीके
ऊपर चढकर चिपटजाता है, फिर वह सुपारी चर्मके
सकुच जानेसे मूत्रके प्रवाहको रोक देती है इसको
निरुद्धप्रकश कहते हैं । इस रोगमें मूत्र मन्द मन्द
धारसे तथा वेदना रहित निकलता है और लिगकी
सुपारी खुलती नहीं है, यह रोग वायुसे होता है
और इसमें वेदना होती है ॥ २२७ ॥ २२८ ॥

निरुद्धप्रकशकी चिकित्सा ।

निरुद्धप्रकशे नाडीं लौहीमुभयतो
मुखीम् । दारवीं वा जन्तुकृतां सघृतां
वा प्रवेशयेत् ॥ २२९ ॥ परिषिञ्चेद्भसां
मजां शिशुमारवराहयोः । चुक्रतैलं
तथा योज्यं वातघ्नद्रव्यसंयुतम् ॥ २३० ॥

निरुद्धप्रकशरोगमें दोनोओर मुखवाली बीसे चुपडे
हुई लोहेकी या लकडीकी अथवा लाखकी बनी हुई
नली लिगके छिद्रमें प्रवेश करे, पश्चात् उसके ऊपर
शिशुमार (सुस) नामक जतुकी तथा सुअरकी चर-
वीका वा मज्जाका रोचन करे और वातनाशक पदा-
र्थोंके साथ चूकेके तेलका सेचन करे ॥ २२९ ॥ २३० ॥

त्र्यहात्स्थूलतरां सम्यङ्नाडीं मार्गे
प्रवेशयेत् । स्रोतः प्रवर्द्धयेदेवं स्नि-

ग्धमन्नश्च भोजयेत् ॥ भित्वा वा सेव-
नीं मुक्त्वा सद्यः क्षतवदाचरेत् ॥२३१॥

तीन तीन दिनके पश्चात् क्रम क्रमसे बढाकर बडी नली उसमे अच्छे प्रकारसे प्रवेश करे कि, जिससे मूत्रका मार्ग बडे । इसमे रोगीको भोजनके लिये स्निग्ध अन्न देवे अथवा सीवनको छोडकर गन्धसे चीरे और फिर तत्काल क्षतके समान चिकित्सा करे इससे निरुद्धप्रकश शीघ्र नष्ट होजाता है ॥२३१॥

सन्निरुद्धगुदके लक्षण ।

वेगसन्धारणाद्वायुर्विहितो गुदसंश्रितः । निरुणाद्भि महत्स्रोतः सूक्ष्मद्वारं करोति च ॥२३२॥ मार्गस्य सौक्ष्म्यात्कृच्छ्रेण पुरीषं तस्य गच्छति । सन्निरुद्धगुदं व्याधिमेनं विद्यात्सुदुस्तरम् ॥ ५३३ ॥

मलके वेगको धारण करनेसे गुदामे रहनेवाले अपानवायु मल निकलनेवाली गुदाके छेदको रोककर गुदद्वारको छोटा कर देती है, उसके छोटे होजानेसे मल अत्यंत कष्टसे थोडा २ उतरता है । इस दारुण रोगको सन्निरुद्धगुद कहते है ॥ २३२ ॥ २३३ ॥

सन्निरुद्धगुदकी चिकित्सा ।

सन्निरुद्धगुदे तैलैः सेको वातहरै-
हितः । तथा निरुद्धप्रकशक्रमः का-
र्यो विजानता ॥ २३४ ॥

सन्निरुद्धगुदको वातनाशक तैलसं सेचन करे अथवा निरुद्धप्रकशकी जो चिकित्सा कही है वह सब इस सन्निरुद्धगुदमें भी करे ॥ २३४ ॥

अहिपूतनके लक्षण ।

शकृन्मूत्रसमायुक्तेऽधौतेऽपाने शि-
शोर्भवेत् । स्विन्ने वाऽध्नाप्यमाने वा
कंडूरक्तफोद्भवा ॥ २३५ ॥ कंडूय-
नात्ततः क्षिप्रं स्फोटः स्त्रावश्च जाय-
ते । एकीभूतं व्रणं धोरं तं विद्यादाहि
पूतनम् ॥ २३६ ॥

मलमूत्रके त्यागनेके पश्चात् बालककी गुदामें वि-
ष्टा लगा रहनेसे अर्थात् उसको नहीं धोनेसे अथवा
पसीनेके आनेपर उसको साफ नहीं करनेसे या
बालकको कभी स्नान नहीं करानेसे रुधिर तथा
कफके प्रकोपसे खुजली होती है और खुजयानेसे
तत्काल फुन्सी तथा स्त्राव होता है फिर वह सब फुसी
एकत्रित होकर छत्तासा होता है इस भयंकर रागको
अहिपूतन कहते है ॥ २३५ ॥ २३६ ॥

अहिपूतनकी चिकित्सा ।

ततः संशोधनैः पूर्वं धात्रीस्तन्यं वि-
शोधयेत् ॥ २३७ ॥

अहिपूतनके उत्पन्न होते ही प्रथम संशोधन औषधि
योसे माताके या धायके दूधको शुद्ध करे ॥ २३७ ॥
त्रिफलाखदिरकार्थैर्ब्रणानां धावनंसदा ।
शङ्खसौवीरयष्ट्याह्वैर्लेपः कार्योऽ-
तिपूतने ॥ २३८ ॥

त्रिफला और खैरके काथसे ब्रणोंको धोवे । शंख,
सौवीर नामक काँजी और मुलैठी इनको एकत्र पीस
कर ब्रणोपर लेप करे ॥ २३८ ॥

कंडूरक्तोत्कटे कुयर्थाद्रक्तस्त्रावं जलौ-
कसा । करञ्जत्रिफलातिक्तैः सर्पिः-
सिद्धं शिशोर्हितम् ॥ २३९ ॥

अहिपूतनरोगमे जो रुधिरकी उत्पन्नता और खुज-
ली हो तो जौकके द्वारा रुधिर निकलवावे । करंज,
त्रिफला और कुटकीके द्वारा घृतको पकाकर अहिपू-
तनरोगसे ग्रसित बालकोंको देवे ॥ २३९ ॥

कासीसरोचनातुत्थहरितालरसांज-
नैः । अम्लपिष्टैः प्रलेपोऽयं व्रणकंडू-
हिपूतने ॥ २४० ॥

कसीस, गोरोचन, तूतिया, हरताल और रसीत
इनको काजीमें पीसकर लेप करनेसे व्रण, खुजली
और अहिपूतनरोग दूर होता है ॥ २४० ॥

पटोलघृत ।

पटोलपत्रत्रिफलारसाञ्जनविपाचित-
म् । पीतं घृतं नाशयति कृच्छ्रम् ।
अहिपूतनम् ॥ २४१ ॥

पटोलपत्र, त्रिफला और रसौत इनके कल्के द्वारा घृतको पकावे। इस घृतको पान करनेसे अत्यन्त कष्ट-साध्य भी अहिपूतनरोग दूर होता है ॥ २४१ ॥

वृषणकच्छूके लक्षण ।

स्नानोत्सादनहीनस्य मलो वृषणसं-स्थितः । यदा प्रकृच्छते स्वेदात्कं-डूअनयते तदा ॥ २४२ ॥ कंडूयना-त्ततः क्षिप्रं स्फोटः स्रावश्च जायते । प्राहुर्वृषणकच्छूं तां श्लेष्मरक्तप्रकोप-जाम् ॥ २४३ ॥

स्नान नहीं करनेसे तथा अंगोंको साफ नहीं कर-नेसे अथवा स्नान करते समय जो मनुष्य अण्डको-पके मलको नहीं धोता तब वह मल सूखकर जम जाता है, फिर पसीना आनेपर गीला होजाता है तब अण्डकोपोंमें अत्यन्त खुजली उत्पन्न होती है उसको खुजानेसे गीत्रही फुंसी होजाती है । उनमेंसे स्राव होता है पश्चात् परस्पर सब मिलकर चकत्से होजाते हैं इसको वृषणकच्छू कहते हैं । यह कफ तथा रुधि-रसे उत्पन्न होती है ॥ २४२ ॥ २४३ ॥

वृषणकच्छूकी चिकित्सा ।

भिषग् वृषणकच्छूं तु चिकित्सेत्पाम-रोगवत् । अहिपूतननिर्दिष्टक्रिययापि च तां हरेत् ॥ २४४ ॥

वैद्य वृषणकच्छूरोगमें पामाके समान चिकित्सा करे । अथवा अहिपूतनरोगमें कहीहुई चिकित्सा करे ॥ २४४ ॥

सर्जाह्वकुष्ठसैन्धवसितसिद्धार्थैः प्रक-ल्पितो योगः । उद्धर्त्तेन नियतं शम-यति वृषणकण्डूतिम् ॥ २४५ ॥

राल, कूठ, सैधानमक और सफेद सरसों इनको एकत्र पीसकर मलनेसे अण्डकोपोंकी खुजली दूर होती है ॥ २४५ ॥

चर्मकीलके लक्षण ।

समुत्थाननिदानाभ्यां चर्मकीलं प्र-कीर्तितम् ॥ २४६ ॥

चर्मकीलका निदान लक्षण अर्शरोगमें कहे गये हैं वे उसीके अनुसार जानने ॥ २४६ ॥

चर्मकीलकी चिकित्सा ।

कट्वीकापालिकामूलं पूतीकं सैन्धवं तथा । शंबूकेन श्लक्ष्णपिष्टं चर्मकी-लकनाशनम् ॥ २४७ ॥

कुटकी, कपालिकाकी जड़, दुर्गन्धकरंज, सैधान-मक और घोघा इन सबको एकत्र बारीक पीसकर प्रलेप करनेसे चर्मकीलरोग नष्ट होता है ॥ २४७ ॥

क्षुद्ररोगोंकी सामान्यचिकित्सा ।

प्रायेण क्षुद्ररोगेषु शस्त्रक्षारानलक्रि-या । लेपनं शोणितस्रावमिति सामान्यसंग्रहः ॥ २४८ ॥

प्रायः सर्वप्रकारके क्षुद्ररोगोंमें शस्त्र, क्षार; अग्नि-कर्म, औषधियोंका लेप और रक्तमोक्षण करना ये सब सामान्य चिकित्सा है ॥ २४८ ॥

इति श्रीवंगसेने भापाटीकायां क्षुद्ररोग-

निदानचिकित्साधिकार

समाप्त ॥ ६३ ॥

अथ मुखरोगाधिकार ।

मुखरोगाः पञ्चषष्टिः सप्तस्वायतनेषु च । तत्र चायतनान्यष्टौ दन्ता द-न्ताशनं तथा ॥ १ ॥ तालुकण्ठश्च जिह्वा च मुखं सर्वश्च सप्तमम् ॥ २ ॥

मुखमें ६५ रोग होते हैं और वे मुखके सात स्थानोंमें रहते हैं । ऊपर नीचेके दोनो ओष्ठ, दंत, दंतवेष्ट, तालु, कण्ठ और जिह्वा ये सात आयतन

१ दन्तेष्वष्ट ८ वोष्ठयोश्च ८ मूल्यु दशपञ्च च १५ नव ९ तालुनि जिह्वाया पञ्च ५ सप्तदशामया १७ । कण्ठे त्रयः सर्वसरा एरुपष्टिचतुः परे ॥ ६५ ॥

हैं। इन सातों आयतनोंसे युक्त मुख कहा जाता है अर्थात् मुखमें ये सातों आयतन होते हैं और इन आयतनोंमें उपर्युक्त रोग उत्पन्न होते हैं ॥ १ ॥ २ ॥

मुखरोगोंका निदान ।

आनूपपिशितक्षारदधिमाषादिसेवनात्।
मुखमध्ये गदान्कुर्युः क्रुद्धा दोषाः
कफोत्तराः ॥ ३ ॥

आनूप (जल प्रायः देश-खादर) देशकं जीवा-
का मांस, क्षार, दही और उदद आदि पदार्थोंको
सेवन करनेसे कफादिदोष कुपित हो कर मुखमें
रोगोंको उत्पन्न करते हैं ॥ ३ ॥

वातिकओष्ठरोगके लक्षण ।

कर्कशौ परुषौ स्तब्धौ संप्राप्तानिल-
वेदनौ । दालयेते परिपाटयेते चाष्टौ
मारुतकोपतः ॥ ४ ॥

वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों तथा रुधिर, मांस
और मेदके विकारोंसे अभिधातके होनेसे इस प्रकार
ओष्ठोंके आठ प्रकारके रोग होते हैं; वातकोपजन्य
ओष्ठरोगमें दोनों ओष्ठ खरखरे, रूखे, कठोर, स्तब्ध
(जकड़े हुएसे), तीव्र वातकी वेदनासे युक्त, तथा
चिरे हुए और किञ्चित् फटे हुए होते हैं ॥ ४ ॥

पैत्तिकओष्ठरोगके लक्षण ।

चीयेते पिटिकाभिश्च सरुजाभिः स-
मन्ततः । सदाहपाकपिडिकौ पीता-
भासौ च पित्ततः ॥ ५ ॥

पित्तकं कुपित होनेसे दोनों ओष्ठ चारों ओरसे
पीढायुक्त फुन्सियोंसे घिर जाते हैं वे फुन्सियें दाह
और पाकयुक्त तथा पीले रंगकी हांती हैं ॥ ५ ॥

श्लैष्मिकओष्ठरोगके लक्षण ।

सवर्णाभिस्तु चीयेते पिटिकाभिरवे-
दनौ । भवतस्तु कफादोष्टौ पिच्छि-
लौ शीतलौ गुरू ॥ ६ ॥

कफजनित ओष्ठरोगमें दोनों ओष्ठ शरीरके चमड़े-
की सदृश वर्णवाली और अल्प पीढावाली फुन्सियों-

से व्याप्त होजाते हैं। तथा खुजली, गंफरी, चिकना-
ईयुक्त, शीतल और भारी होते हैं ॥ ६ ॥

सन्निपातिकके लक्षण ।

सकृत कृष्णौ सकृत्पीधौ सकृच्छ्रुतौ
तथैव च । सन्निपातेन विज्ञेयावनेक-
पिटिकान्वितौ ॥ ७ ॥

जिसके एकसाथ तीनों दोषोंके कुपित होनेसे ओष्ठ
कभी काले, कभी पीले, कभी सफेद और अनेक
फुन्सियोंसे युक्त हों तो उसको सन्निपातज ओष्ठरोग
जानना चाहिए ॥ ७ ॥

रक्तजओष्ठरोगके लक्षण ।

खर्जूरफलवर्णाभिः पिटिकाभिर्निपी-
डितौ । रक्तोपसृष्टौ रुधिरं स्रवन्तौ
शोणितप्रभौ ॥ ८ ॥

रुधिरके कुपित होनेसे दोनों हांठोंमें खजूरके रंगके
समान और अल्प पीढा युक्त फुन्सिये होती हैं, उन-
मेंसे रुधिर बहता है और ओष्ठोंका रंग रुधिरके
समान लाल होता है ॥ ८ ॥

मांसजनित ओष्ठरोगके लक्षण ।

मांसदुष्टौ गुरू स्थूलौ मांसपिण्डवदु-
न्नतौ । कृमयश्चात्र मूर्च्छन्ति नरस्यो-
भयतो मुखात् ॥ ९ ॥

मांसके दूषित होनेसे दोनों ओष्ठ भारी, मोटे और
मांसके पिण्डके समान ऋचे होते हैं। इस मांसज
ओष्ठरोगमें मनुष्यके दोनों गलफुओंमें कीड़े पडजाते
हैं ॥ ९ ॥

मेदजओष्ठरोगके लक्षण ।

सर्पिर्मण्डप्रतीकाशौ मेदसा कंदुरौ
गुरू । स्वच्छं स्फटिकसंकाशमास्त्रा-
वं स्रवतो भृशम् ॥ तयोर्व्रणं न संरो-
हेन्मृदुत्वं न च गच्छति ॥ १० ॥

मेदजनित ओष्ठरोगमें दोनों ओष्ठ धी और माड़-
के समान होते हैं उनमें खुजली तथा भारी-
पन होता है। स्फटिकमणिके समान निर्मल, अधि-
कस्त्रावयुक्त होते हैं। उनमें उत्पन्न हुआ व्रण न नरम
होता है और न भरता है ॥ १० ॥

अभिघातजके लक्षण ।

ओष्ठौ पर्यवदीर्येते पाट्येते चभिघा-
ततः । ग्रथितौ च तथा स्यातामोष्ठौ
कंडूसमन्वितौ ॥ ११ ॥

अभिघातजओष्ठरोगमें दोनों होठ फिरजाते हैं
या फट जाते हैं उनमें पीडा होती है, गांठे पडजाती
हैं खुजली होती है ॥ ११ ॥

मुखरोगकी चिकित्सा ।

मुखदन्तमूलदशनच्छदेषु रोगाः क-
फाम्लभूयिष्ठाः । तस्मात्तिसामसकृद्दु-
धिंरं विस्त्रावयेद्दुष्टम् ॥ १२ ॥

मुखरोग, मसूढोंके रोग और ओष्ठरोगोंमें प्रायः
कफ और रुधिरक्री प्रधानता होती है इस कारण इन
रोगोंमें बारंबार दूषित रुधिर निकलवाना चाहिये ॥
॥ १२ ॥

स्नेहींस्तथोष्णान्परिपेकलेपान्वृतस्य
पानं रसभोजनञ्च । अभ्यञ्जनस्वेद-
नलेपनानि चोष्ठे विदध्यात्पवनाभि-
भूते ॥ १३ ॥

वातजनित ओष्ठरोगमें उष्ण स्नेह, उष्ण परिपेक,
उष्ण औषधियोंके प्रलेप, घृतका पान, मांसरसका
भोजन, अभ्यञ्जन, स्वेदन और लेपन इत्यादि उपचार
करने चाहियें ॥ १३ ॥

चतुर्विधेन स्नेहेन मधूच्छिष्टयुतेन च ।
वातजेऽभ्यञ्जनं कुर्यान्नाडीस्वेदश्च
बुद्धिमान् ॥ १४ ॥

बुद्धिमान् वैद्य तेल, घी, चरबी और मज्जा इन चार
प्रकारके स्नेहोंके साथ मोम मिलाकर वातज ओष्ठ-
रोगमें अभ्यञ्जन करे और इनके द्वारा नाडीको स्वेद
देवे ॥ १४ ॥

मस्तिष्के चैव नस्ये च तैलं वातहरं
हितम् । स्वेदोऽभ्यङ्गः स्नेहपानं रसा-
यनमिहेष्यते ॥ १५ ॥

वातनाशक औषधियोंके द्वारा तेलको प्रकाकर म-
स्तिष्कमें नाम देवे । इस रोगमें स्वेद, अभ्यंग और

स्नेहपान ये सब रसायनके समान गुण करते
हैं ॥ १५ ॥

तैलं घृतं सर्जरसं ससिक्थं रास्ना
गुडं सैन्धवगैरिकञ्च । पक्वं समांशं
दशनच्छदानां त्वग्भेदहन्तुं प्रवदन्ति
लेपम् ॥ १६ ॥

तैल, घी, राल, मोम, रास्ना, गुड, सैधानभक और
गेरू ये सब औषधि समान भाग लेकर पकावे ।
इसको ओष्ठोंपर प्रलेप करनेसे होठोंका फटना और
ओष्ठत्रण नष्ट होते हैं ॥ १६ ॥

श्रीवेष्टकं सर्जरसं गुग्गुलं सुरदारु च ।
यष्टीमधुकचूर्णञ्च विदध्यात्प्रतिसार-
णम् ॥ १७ ॥

श्रीवेष्ट (लोवान), राल, गूगल, देवदारु और
मुलैठी इनका चूर्ण करके प्रतिसारण करे ॥ १७ ॥

वेधं शिराणां वमनं विरेकं तिक्तास्य-
पानं रसभोजनञ्च । शीतान्प्रेदहान्प-
रिषेचनञ्च पित्तोपसृष्टेष्वधरेषु कु-
र्यात् ॥ १८ ॥

पित्तजओष्ठरोगमें नस छेदकर रुधिर निकलवाना,
वमन करना, विरेचन करना, तिक्त नामक घृत
पिलाना अथवा तिक्तपदार्थोंको सेवन कराना, मांस-
रसका भोजन देना, शीतल लेप और शीतल सेचन
आदि उपचार करने चाहियें ॥ १८ ॥

रक्तपित्तोपघातोत्थे जलोक्ताभिरुपा-
चरेत् । पित्तविद्राधिवच्चापि क्रियां-
कुर्यादशेषतः ॥ १९ ॥

रक्तपित्तजनित ओष्ठरोगमें जौकके द्वारा रुधिर
निकलवावे तथा पित्तविद्राधिके समान सम्पूर्ण
चिकित्सा करे ॥ १९ ॥

शिरोविरेचनं धूमं स्वेदः कवल एव
वा । हते रक्ते प्रयोक्तव्यमोष्ठपाके
कफात्मके ॥ २० ॥

कफजओष्ठरोगमें रुधिर निकलवानेके पीछे शिरो-

विरेचन देवे, धूम्रपान करावे, स्वेदन करे और कवल धारण करावे ॥ २० ॥

त्रिकटुस्वार्जिकाक्षारः क्षारश्च यवशू-
कजः । क्षौद्रयुक्तं विधातव्यमेतच्च
प्रतिसारणम् ॥ २१ ॥

त्रिकुटा, सजीखार और जवाखार इनको शहदमें मिलाकर प्रतिसारण करे अर्थात् इस औषधिसे ओठोंको घिसे ॥ २१ ॥

शूलं विवर्णं सलसीकमोष्ठं सकंदुरं
तीव्रहृजं प्रवातम् । लिखेच्च फेनद्वि-
पलाशबालैर्निष्पीड्य वातक्षतसार-
येद्वा ॥ २२ ॥

जो ओष्ठमें शूल हो, ओष्ठका रंग विवर्ण हो, चिपकतासा पानी गिरे, खुजली और तीव्र वातकी पीडा हो तो ओष्ठोंको लिखे तथा ढाकके दो कोमल पत्ते लेकर उनको मसल करके उनके झाग निकालकर उन झागोंसे वातज ओष्ठक्षतमें प्रतिसारण करे २२ ॥

जीवन्तिकलकं पयसा समांशं तैलं
विपक्वा मधुना विभिश्चम् । ओष्ठा-
स्ययोः सर्जरसाष्टभागं व्रणं निहन्या-
त्सकृदेव लेपात् ॥ २३ ॥

जीवन्तीके कलकको समान भाग लेकर गौके दूध, तेल, शहद और आठवे भाग रालके चूर्णमें मिला कर पकावे । इसका केवल एक बार लेप करनेसे ओष्ठ और मुखके व्रण शांत होजाते हैं ॥ २३ ॥

भेदोजे स्वेदिते भिन्ने शोधिते ज्वल-
नो हितः । त्रिचंगुत्रिफलालोघ्रं स-
क्षौद्रं लेपने हितम् ॥ २४ ॥ हितश्च
त्रिफलाचूर्णं मधुयुक्तं प्रलेपनम् । ए-
तदौषप्रकोपाणां साध्यानां कर्म की-
र्तितम् ॥ २५ ॥

भेदजन्य ओष्ठरोगमें-स्वेदन, भेदन, दूगित मांसको निकलवावे और शोधन करने, अग्निके द्वारा सेक करना हितकर है । इसमें फूलत्रिचंगु, त्रिफला और,

लोवकं चूर्णको शहदमें मिलाकर हांठोंको घिसना चाहिये तथा त्रिफलेकं चूर्णको शहदमें मिलाकर हांठोंमें प्रलेप करना चाहिए यह साध्य ओष्ठके रोगोंको चिकित्सा कही है ॥ २४ ॥ २५ ॥

स्विन्नं क्षतोष्ठमुल्लिख्य पीडयेत्सुस-
माहितः । शतधातघृताभ्यक्तं दिव्या-
त्कंवलिकां कृते ॥ क्लिन्नव्रणे च तत्सर्वं
यत्का व्रणवदाचरेत् ॥ २६ ॥

क्षतजओष्ठमें अथवा ओष्ठोंमें क्षतके हो जाने पर प्रथम ओष्ठोंको स्वेदन करके पश्चात् अच्छे प्रकारसे लेखन करे अर्थात् लिखे, फिर दवावे । तथा कवलुको धारण करे, और सौवार धुले हुए घृतका लेप करे । ओष्ठमें क्लिन्न व्रण हांजाय तो सब विधिको छोडकर व्रणके समान चिकित्सा करे ॥ २६ ॥

सामान्यमुखरोगलक्षण ।

मुखामये मारुतजे तु शोषकार्क-
श्यरौक्ष्याणि चला रुजश्च । कृष्णारु-
णं निष्पतनं सशैत्यं प्रस्पंदनं संसन-
तोददाहाः ॥ २७ ॥

वातजनित मुखरोगमें शोष, कर्कशता, रूक्षता चञ्च-
लता, पीडा, काले और लालरंगके छालोका मुखमें होना अथवा मुखमेंसे काला और लालरंगका पानी गिरना, शीतलता, कम्प, स्राव तोडनेसरीखी पीडा और दाह होती है ॥ २७ ॥

तृष्णाज्वरस्फोटकदाहपाका धूमाय-
नं चास्यविदीर्णता च । पित्तात्समू-
र्च्छा विविधा रुजश्च मुखं च पीतारु-
णवर्णयुक्तम् ॥ २८ ॥

पित्तके मुखरोगमें तृषा, ज्वर, स्फोटक, दाह, पकना, मुखमें घुआसा निकलना, मुखका फटना, मूर्च्छा, अनेक प्रकारकी पीडाये और मुखका वर्ण पीला तथा लाल होता है ॥ २८ ॥

कंडूगुरुत्वं सितवज्जलत्वं स्नेहोऽरुचि-
र्जाड्यकफप्रसेके । उत्क्लेशनं दालन-
भावतंद्रारुजश्च मन्दा कफवक्ररोगेऽ९

कफजमुखरोगमें—खुजली, भारीपन, सफेद जल-सा निकलना, चिक्कनापन, अरुचि, जडता, कफका स्राव, उत्केश, दलने सरीखी पीडा तन्द्रा और अल्प-वेदना होती है ॥ २९ ॥

द्विदोषलिङ्गानि भवन्ति यत्र द्विदो-
षजो वक्रगदः स वेद्यः । लिङ्गानि स-
र्वाणि मुखे च यस्य भवन्ति तस्यैव
तु सन्निपातात् ॥ ३० ॥

जिस मुखरोगमें दो दोषोंके लक्षण मिलें, उसको द्वन्द्वज मुखरोग जानना और जिसमें तीन दोषोंके लक्षण मिलते हों उसको सन्निपातज अर्थात् त्रिदोषज मुखरोग जानना चाहिये ॥ ३० ॥

ये मुखरोगके सब लक्षण चरकसंहितामें कहे हैं ।

दंतवेष्टरोगानिदान ।

दंतवेष्टरोगोंकी संख्या और नाम ।

शीताद दन्तपुण्ड, दंतवेष्ट, शौषिर, महाशौषिर, परिदर, उपकुश, वैदर्भ, खलिवर्द्धन, अधिमांस, पांचप्रकारकी दन्तनाडी और दंतविद्रधि ये सौलह रोग दंतवेष्टों (दांतोंकी जड़ों) में उत्पन्न होते ।

प्रथम शीतादके लक्षण कहते हैं ।

शोणितं दन्तवेष्टेभ्यो यस्याकस्मा-
त्पवर्त्तते । दुर्गन्धीनि सकृष्णानि प्र-
क्लेदीनि मृदूनि च ॥ ३१ ॥ दन्तमां-
सानि शीयन्ते पचन्ति च परस्पर-
म् । शीतादो नाम स व्याधिः कफ-
शोणितसम्भवः ॥ ३२ ॥

जिसके दंतमूल अर्थात् मसूढ़ोंमेंसे अकस्मात् रुधिर निकले, मसूढ़ोंका मांस दुर्गन्धित, काला, क्लेदयुक्त और कौमल हो तथा मांस गलकर गिरे और मसूढ़ परस्पर पकजायें तो इसको शीताद कहते हैं । यह रोग कफ और रुधिरसे उत्पन्न होता है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

दन्तपुण्डके लक्षण ।

दन्तयोस्त्रिषु वा यस्य जायते श्वय-
थुर्महान् । दन्तपुण्डको नाम स व्या-
धिः कफरक्तजः ॥ ३३ ॥

जिसके दो या तीन दाँतोंमें अत्यन्त सूजन हो उसको दंतपुण्ड कहते हैं । यह रोग कफ और रक्तसे होता है ॥ ३३ ॥

दन्तवेष्टके लक्षण ।

स्रवंति पूयरुधिरं चला दन्ता भव-
न्ति च । दन्तवेष्टः स विज्ञेयो दुष्टशो-
णितसम्भवः ॥ ३४ ॥

जब मसूढ़ोंमेंसे रुधिर या राध बहती है और दांत हिलते हैं तब उसको दंतवेष्ट रोग कहते हैं । यह रोग दुष्ट रुधिरसे उत्पन्न होता है ॥ ३४ ॥

शौषिरके लक्षण ।

श्वयथुर्दन्तमूलेषु रुजावान् कफरक्त-
जः । लालास्रावी स विज्ञेयः शौषिरो
नाम नामतः ॥ ३५ ॥

दांतकी जड़ोंमें कफ और रक्तके कुपित होनेसे उत्पन्न हुई और लारका स्राव करनेवाली जो सूजन होती है उसको शौषिररोग जानना चाहिए ॥ ३५ ॥

महाशौषिरके लक्षण ।

दन्ताश्चलन्ति वेष्टभ्यस्तालु चाप्य-
वदीर्यन्ते । यस्मिन् स सर्वजो व्याधि-
र्महाशौषिरसंज्ञितः ॥ ३६ ॥

जिसमें त्रिदोषके कुपित होनेसे दाँत मसूढ़ोंसे अलग होकर हिलने लगे और तालुवा फटजाय (मसूढ़े पकजायें और मुख अत्यन्त पीडित होय) तो इस रोगको महाशौषिर कहते हैं । (यह रोग मनुष्यको सात दिनमें मारदेता है । क्योंकि भोज कदता है कि—“यह महाशौषिररोग सात रात्रिमें प्राणोंका नाश करदेता है ”) ॥ ३६ ॥

परिदरके लक्षण ।

दन्तमांसानि शीयन्ते यस्मिन् ष्टी-
वाति चाप्यसृक् । पित्तासृक्कफजो व्या-
धिर्ज्ञेयः परिदरो हि सः ॥ ३७ ॥

जिसमें मसूढ़ोंका मांस गलजाय और थूकते समय रुधिर गिरे उसको परिदररोग कहते हैं । यह रोग पित्त रुधिर और कफके प्रकोपसे होता है ॥ ३७ ॥

उपकुशके लक्षण ।

वेष्टेषु दाहः पाकश्च ताभ्यां दन्ताश्च-
लन्ति च । अत्यदिताः प्रस्रवन्ति
शोणितं मन्दवेदनम् ॥ ३८ ॥ आ-
ध्मायन्ते स्रुते रक्ते मुखं पूतिश्च जा-
यते । यस्मिन्सोपकुशो नाम पित्त-
रक्तकृतो गदः ॥ ३९ ॥

जिसमें मसूढोंमें दाह और पाक होता है, तथा
उन दोनों कारणोंसे दाँत हिलने लगते हैं, मसूढोंके
अत्यन्त पीड़ित होनेसे अल्पवेदनायुक्त रुधिर गिरने
लगाता है और रुधिरके गिरने पर मसूढे तत्काल
सूजजाते हैं और मुखमें दुर्गन्ध आती है तो वह उप-
कुश नामक रोग होता है यह रोग पित्त तथा रुधिरके
प्रकोपसे होता है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥

वैदर्भके लक्षण ।

घृष्टेषु दन्तमांसेषु संरम्भो जायते म-
हान् । भवन्ति चञ्चला दन्ताः स वैद-
र्भोऽभिघातजः ॥ ४० ॥

जब मसूढोंके घिसनेसे अत्यन्त सूजन हो जाती है
और दाँत हिलने लगते हैं (और वेदना दाह एवं पाक
होता है) तो उस रोगको वैदर्भ कहते हैं । यह रोग
काष्ठ आदिकी चोट लगनेसे उत्पन्न होता है ॥ ४० ॥

खल्लिवर्द्धनके लक्षण ।

मारुतेनाधिको दन्तो जायते तीव्र
वेदनः । खल्लिवर्द्धनसंज्ञोऽसौ संजाते
रुक् च शाम्यति ॥ ४१ ॥

वातके कुपित होनेसे दाँतके ऊपर दाँत जम जाती
है जमते समय उभय पीड़ा होती है और जब वह
जमजाता है तब पीड़ा गमन होजाती है, इस रोग-
को खल्लिवर्द्धन कहते हैं ॥ ४१ ॥

करालके लक्षण ।

शनैः शनैः प्रकुरुते वायुर्दन्तसमा-
श्रितः । करालान्विकटान्दन्तान्करा-
लो न च सिध्यति ॥ ४२ ॥

जब दाँतमें स्थित वायु शनैः शनैः दाँतको ऊँचा
नीचा, टेढ़ा, तिरछा कर देता है तब उसको कराल
कहते हैं । यह रोग अमाभ्य है ॥ ४२ ॥

अधिमांसके लक्षण ।

हानव्ये पश्चिमे दन्ते महाञ्छेथो म-
हारुजः । लालास्रावी कफकृतो वि-
ज्ञेयः सोऽधिमांसकः ॥ ४३ ॥

जिसमें पीछेकी डाढ़के नीचे अत्यन्त सूजन हो,
तीव्र पीड़ा हो और अत्यन्त लार गिरे उस रोगको
अधिमांस कहते हैं, यह कफसे उत्पन्न होता है ॥ ४३ ॥

पांच प्रकारकी दन्तनाडियोंके
लक्षण ।

दन्तमूलगता नाड्यः पञ्च ज्ञेया यथे-
रिताः ॥ ४४ ॥

जिस प्रकार नाडीव्रणमें वात, पित्त, कफ, सन्नि-
पात और श्लेष्मसे उत्पन्न हुई पांच प्रकारकी नाडी
कही है उसी प्रकार पांच प्रकारकी नाडी दाँतके मसू-
ढोंमें होती है । इस प्रकार इनके लक्षण नाडीव्रणा-
धिकारमें कहे अनुसार जानने चाहिये ॥ ४४ ॥

दन्तरोगका निदान ।

दीर्यमाणेष्विव रुजा भृशं दन्तेषु
जायते । दालनो नाम स व्याधिः स-
दागतिनिमित्तजः ॥ ४५ ॥

जिसके दाँतोंमें चीरनेसरीखी अत्यन्त पीड़ा हो,
उसको दालन रोग कहते हैं । यह रोग वातके प्रको-
पसे होता है ॥ ४५ ॥

कृमिदन्तके लक्षण ।

कृष्णच्छिद्रश्चलस्रावी संरम्भो म-
हारुजः । अनिमित्तरुजो वातात्स
ज्ञेयः कृमिदन्तकः ॥ ४६ ॥

वातके कुपित होनेसे दाँतोंमें काले छिद्र पड जाते
हैं, दाँत हिलने लगते हैं, उनमेंसे स्राव होता है, पीड़ा
अधिक होती है, सूजन होती है और बिनाकारण
दुखते हैं उसको कृमिदन्तरोग कहते हैं ॥ ४६ ॥

भञ्जनके लक्षण ।

वक्रं वक्रं भवेद्यस्य दन्तभङ्गश्च जा-
यते । कफवातकृतो व्याधिः स भञ्ज-
नकसंज्ञितः ॥ ४७ ॥

जिसमें मुख टेढ़ा होजाय और दांत टूट जाय उस को दन्तभञ्जन कहते हैं । यह रोग कफवातज है ॥ ४७ ॥

दन्तहर्षके लक्षण ।

शीतरूक्षप्रवाताम्ल-स्पर्शानामसहा
द्रिजाः । पित्तमारुतकोपेन दन्तहर्षः
स नामतः ॥ ४८ ॥

जिसमें दांत-शीत, रुक्ष, वायु और खट्टे पदार्थ आदिके स्पर्शको न सह सकें उसको दंतहर्ष कहते हैं । यह पित्त और वातके प्रकोपसे होता है ॥ ४८ ॥

दन्तविद्रधिके लक्षण ।

दन्तमांसमलैः सार्वैर्बाह्यतः श्वयथु-
र्महान् । सदाहरुक् स्रवेद्रिन्नः पूया-
सं दन्तविद्रधिः ॥ ४९ ॥

दांतोंके मांसमें स्थित वात, पित्त, कफ और रुधिर इन दोषोंके प्रकोपसे बाहर दाह तथा वेदनायुक्त अत्यन्त सूजन उत्पन्न होती है । उसके छेदनेसे राध और रुधिर निकलता है । इस रोगको दंतविद्रधि कहते हैं ॥ ४९ ॥

दन्तशर्कराके लक्षण ।

मलो दन्तगतो यस्तु कफमारुतशो-
षितः । शर्करेव खरस्पर्शा सा ज्ञेया
दन्तशर्करा ॥ ५० ॥

कफ और वातसे दांतोंका जो मैल सूख कर खांड-के समान खरखरा स्पर्शवाला मालूम होता है उस रोगको दंतशर्करा कहते हैं ॥ ५० ॥

कपालिकाके लक्षण ।

कपालेष्विव दीर्यत्सु दन्तानां सैव
शर्करा । कपालिकेति सा ज्ञेया सदा
दन्तविनाशिनी ॥ ५१ ॥

उसी दंतशर्करारोगमें मैलसहित दांत कपाल अर्थात् खिपडेके समान गिरें और टूटे उसको कपालिका कहते हैं । यह दांतोंको सदैव तोड़ तोड़कर गेरता है ॥ ५१ ॥

श्यावदन्तके लक्षण ।

योऽसृङ्गमिश्रेण पित्तेन दग्धोदन्तस्त्व-

शेषतः । श्यावतां नीलतां वापि ग-
तः स श्यावदन्तकः ॥ ५२ ॥

जिसमें रुधिरसहित पित्तसे जले हुएके समान दांत विलकुल फाले अथवा नीले हो जाते हैं उस रोगको श्यावदंतक कहते हैं ॥ ५२ ॥

हनुमोक्षके लक्षण ।

हनुमोक्ष इति ज्ञेयो व्याधिरर्दितल-
क्षणः ॥ ५३ ॥

वातसे जिस २ हनुसंधिमें अभिघात होनेसे दाँत हिलने लगे उसको हनुमोक्ष कहते हैं । इसके लक्षण आर्दितरोगके समान जानने ॥ ५३ ॥

दन्तरोगकी चिकित्सा ।

सामान्येन निदानेन ये निर्दिष्टा सु-
खामयाः । तान्विदित्वा त्विदं कुर्या-
द्यथास्वं भेषजक्रियाम् ॥ ५४ ॥

सामान्य निदानके द्वारा मुखरोगोंके जो लक्षण कह है उन सबको अच्छेप्रकारसे विचारकर यथा-दोषानुसार औषधकी फल्पना करके चिकित्सा करे ॥ ५४ ॥

तेजोह्वामागधीमूलं समङ्गाकटुका-
यनम् । पाठाज्योतिष्मतीलोध्रं दा-
र्विकुष्ठञ्च चूर्णयेत् ॥ ५५ ॥ दन्तानां
घर्षणं कंडूरक्तस्त्रावरुजापहम् ॥ ५६ ॥

तेजबल, पीपलामूल, मजीठ, कुटकी, नागरमोथा, पाठ, मालकांगनी, लोध, दारुहलदी और कूठ इन सबको एकत्र चूर्ण करके दाँतोंको घिसनेसे दाँतोंकी खुजली, रुधिरका गिरना और पाडा दूर होती है ॥ ५५ ॥ ५६ ॥

शीतादे हतरक्ते तु तोयं नागरसर्ष-
पान् । निष्काथ्य त्रिफलाश्चापि कु-
र्याद्रंद्बूषधारणम् । प्रियङ्गवश्च मुस्ता
च त्रिफला च प्रलेपनम् ॥ ५७ ॥

शीताद नामक दन्तरोगमें रुधिर निकलवानेके पश्चात् जलमें सोंठ, सरसों, हरड, बहंडा और आमला इनका काथ बनाकर उस काथके कुल्ले करे । तथा फूलप्रियंगु, नागरमोथा और त्रिफला इन तीनोंको एकत्र पीसकर प्रलेप करे ॥ ५७ ॥

काशीस-लोध्र-कृष्णा-मनःशिलास-
प्रियंगुतेजोहाः । एषां चूर्णं मधुयुक्तं
शीतादेः पूतिमांसहरम् ॥ ५८ ॥

हीराकसीस, लोध, पीपल, सैनशील, फूलप्रियंगु
और तेजवल इनके चूर्णको गहदमें मिलाकर शीताद
रोगमें प्रयोग करे तो दुर्गन्धित सडाहुआ मांस दूर
होता है ॥ ५८ ॥

प्रपौण्डरीकमधुकत्रिफलोत्पलसाधि-
तम् । तैलं घृतं वा वातघ्नं शीतादेः
संप्रशस्यते ॥ ५९ ॥

पुण्डेरिया, मुलैठी, त्रिफला और कमल इनके
कल्कके द्वारा सिद्ध किया हुआ घृत अथवा तेल,
अथवा वातनाशक औषधियोंके कल्कके द्वारा
पकाया हुआ तेल या घृत शीतादरोगको नाश कर-
नके लिये श्रेष्ठ है ॥ ५९ ॥

कुष्ठं दावीलोध्रमब्दं समङ्गा, पाठा-
तिका तेजनी पीतिका च । चूर्णं श-
स्तं घर्षणं तद्विजानां, रक्तस्त्रात्रं हन्ति
कंडू रुजाश्च ॥ ६० ॥

कूठ, दारुहलदी, लोध, नागरमोथा, मजीठ, पाढे,
कुटकी, तेजवल और पियाँवासा इनका चूर्ण करके
दांतोंको घिसनेसे रुधिरस्त्राव, खुजली और पीडा दूर
होती है ॥ ६० ॥

पाठालोध्रसमङ्गापर्पटगदतेजनीनि-
शायुगलैः । कंडू रुक्खावयुतं चूर्णा-
कृतैर्विघर्षयेच्छुष्णैः ॥ ६१ ॥

पाढ, लोध, मजीठ, पित्तपापडा, कूठ, तेजवल
हलदी और दारुहलदी इनको बारीक पीसकर
दांतोंमें घिसनेसे खुजली, पीडा, रुधिरका गिरना
और समस्त दांतोंके रोग दूर होते हैं ॥ ६१ ॥

दन्तपुण्ड्रके कार्य्यं तरुणे रक्तमोक्ष-
णम् । शिरोविरेकश्च हितो नस्यं स्नि-
ग्धश्च भक्षणम् ॥ ६२ ॥

दन्तपुण्ड्ररोगमें तत्कालही रुधिर निकलवाना
चाहिये । तथा शिरोविरेचन, नस्य और स्निग्धभो-
जन करना चाहिये ॥ ६२ ॥

तिलभवबीजपावकसिततरसिद्धार्थ-
कल्पितः कवलः । उष्णांबुसंप्रयुक्तो
द्विजतलसंजातशोथहरः ॥ ६३ ॥

तिल, चीता और सफेद सरसो इनको एकत्र पी-
सकर गरम जलमें मिलाकर कवल धारण करे, इससे
दांतोंकी सूजन दूर होजाती है ॥ ६३ ॥

विस्त्राविते दन्तवेष्टे व्रणन्तु प्रतिसा-
रयेत् । लोध्रं पतङ्गमधुकलाक्षाचूर्णै-
र्मधत्तरैः ॥ ६४ ॥

दन्तवेष्टरोगमें जो रुधिर गिरता हो तो लोध,
पतंग, मुलैठी और लाख इनके चूर्णको गहदमें मिला
कर व्रणके ऊपर अंगुलीसे घिसे ॥ ६४ ॥

गण्डूषे क्षीरिणो योज्याः सक्षौद्रघृ-
तशर्कराः ॥ ६५ ॥ चलदन्तस्थिरकरं
कार्य्यं बकुलचर्वणम् ॥ ६६ ॥

बटादि पंचक्षीरीवृक्षोंका काथ बनाकर उसमें
शहद, घी और मिश्री डालकर कुल्ले करे । तथा मौ-
लसिरीकी छालको चर्वण करे तो हिलते हुए दांत स्थिर
होजाते हैं ॥ ६५ ॥ ६६ ॥

भद्रमुस्तादिदटिका ।

भद्रमुस्ताभयाव्योषक्विडङ्गारिष्टपल्ल-
वैः । गोमूत्रपिष्टैर्वटिकां छायाशु-
ष्कां प्रकल्पयेत् ॥ ६७ ॥ तां निधाय
मुखे लुप्याच्चलदन्तांतरो नरः । ना-
तः परतरं किञ्चिच्चलदन्तस्य भेषज-
म् ॥ ६८ ॥

भद्रमोथा, हरड, त्रिकुटा, वायविडंग और नीमके
पत्ते इन सबको एकत्र गोमूत्रमें पीसकर गोली बना
लेवे । फिर उड गोलीको छायामें सुखा सोते समय
मुखमें रखकर सो जावे तो हिलते हुए दांत स्थिर हो
जाते ह । हिलते हुए दांतोंकी इससे उत्तम अन्य औ-
षध नहीं है ॥ ६७ ॥ ६८ ॥

दशमूलीकषोयण तैलं वा घृतमेव
च । विपकं कवले शस्तं सक्षौद्रं द-
न्तधावने ॥ ६९ ॥

दशमूलके काथमें तैल अथवा घृतको पकाकर उसमें गृहद मिलाकर दन्तधावनके समय उसका कवल धारण करे ॥ ६९ ॥

दन्तचाले दन्तहर्षे मुखरोगे च वातिके । मुखोष्णमथवा शीतं तैलकल्कोदकं हितम् ॥ ७० ॥

दिलते हुए दांतोंमें, दन्तहर्षमें और वातजमुखरोगमें शीतल औषधियोंके द्वारा पकाया हुआ मुखोष्ण तेल या कल्क अथवा औषधियोंका काथ हितकारी है ॥ ७० ॥

**शौषिरे हतरक्ते तु लोभ्रमुस्तारसा-
अन्नैः । सक्षौद्रैः शस्यते लेपो गण्डूषे
क्षीरिणो हिताः ॥ ७१ ॥**

शौषिररोगमें दांतोंमेंसे, रुधिर निकलवानेके पश्चात् लोभ्र, नागरमोथा और रमौत इनका चूर्ण करके गृहद मिलाकर लेप करना चाहिए और पंचक्षीरी वृक्षोंके काथके गण्डूष (कुल्ले) करने चाहिए ॥ ७१ ॥

**माक्षिकं पिप्पलीसर्पिर्मिश्रितं धार-
येन्मुखे । दन्तशूलहरं प्रोक्तं प्रधान-
मिदमौषधम् ॥ ७२ ॥**

शहद, पीपल और घी इनको एकत्र मिलाकर मुखमें धारण करे । दांतोंकी पीडाको शमन करनेके लिए यह प्रधान औषध है ॥ ७२ ॥

**हिङ्गुकट्फलकाशीसर्वाजिकाकुष्ठव-
ल्कजम् । रदपीडां जयत्याशु वक्रस्थं
दशने धृतम् ॥ ७३ ॥**

हींग, कायफल, कसीस, सजी और कूठकी छाल इन सबको एकत्र पीसकर मुखके भीतर दांतोंमें रखने से दांतोंकी पीडा शीघ्र शान्त होती है ॥ ७३ ॥

**शारिवोत्पलयष्ट्याह्वशारिवागुरुच-
न्दनैः । क्षीरे दशगुणे सिद्धं सर्पिर्न-
स्ये च पूजितम् ॥ ७४ ॥**

शारिवा, कमल, मुल्लठी, अनन्तमूल, अगर और चन्दन इनको दशगुने दूधमें डालकर घीको पकावे । इस घीको नाग देनेसे दांतोंकी पीडा शांत होती है ॥ ७४ ॥

**क्रियां परिदरे कुय्याच्छीतादोक्तां
विचक्षणः । संशोध्योभयतः कार्य्य
शिरश्चोपकुशे तथा ॥ ७५ ॥**

परिदररोगमें शीतादरोगोक्त चिकित्सा करे । तथा वमन और विरेचन देवे और उपकुशरोगमें शिरोविरेचन देवे ॥ ७५ ॥

**काकोदुम्बरिकापत्रैर्व्रणं विस्त्रावये-
द्विषक् । लवणैः क्षौद्रयुक्तैश्च सव्योषैः
प्रतिसारयेत् ॥ ७६ ॥**

वैद्य, कठूमरके पत्तोंसे दांतोंके व्रणको घिसकर रुधिर निकलवावे तथा सैधानमक, गृहद और त्रिकुटेका चूर्ण इनको एकत्र मिलाकर धीरे २ दांतोंको घिसवावे ॥ ७६ ॥

**पिप्पलीसर्वपाः श्वेता नागरं नैचुलं
फलम् । सुखोदकेन संसृष्टं कवलश्चा-
पि धारयेत् ॥ ७७ ॥**

पीपल, सरसो, फटकरी, सोठ और जलवेतके फल इनको पीसकर मन्दोष्ण जलमें मिलाकर कवल धारण करावे ॥ ७७ ॥

**घृतं मधुरकैः सिद्धं हितं कवलनस्य-
योः । क्षौद्रद्वितीयाः पिप्पल्याः क-
वलश्चात्र कीर्तितः ॥ ७८ ॥**

इसमें मधुर औषधियोंके द्वारा घृतको पकाकर कवल धारण करना और नस्य देना उपयोगी है तथा दोनों प्रकारकी पीपलोंको शहदमें मिलाकर कवल धारण करना श्रेष्ठ है ॥ ७८ ॥

**पटोलनिम्बत्रिफलाकषायश्चात्र धा-
वने । शिरोविरेकश्च हितो धूमो वैरे-
चनश्च यः ॥ ७९ ॥**

इसमें दांतोंको धोनेके लिए पटोलपत्र, नीम और त्रिफला इनका काथ हितकर है तथा शिरोविरेचन और विरेचन करानेवाला धूम्रपान करना हितकारी है ॥ ७९ ॥

**नाडीव्रणहरं कर्म दन्तनाडीषु का-
रयेत् । यदन्तमध्ये जायेत नाडी तं
दन्तमुद्धरेत् ॥ ८० ॥**

दतनाडीव्रणमें नाडीव्रणके समान चिकित्सा करे वह नाडी जिस दांतमें हो उस दांतको उखाड़ डालना चाहिए ॥ ८० ॥

छित्वा मांसानि शस्त्रेण यदि नोपरिजो भवेत् । शोधयित्वा दहेच्चपि क्षारेण ज्वलनेन वा ॥ ८१ ॥

यदि वह नाडी ऊपरके दांतमें हो तो उस स्थानके मांसको शस्त्रसे छेदन करके निकाल डाले तथा शोधन कर क्षार भरे अथवा अग्निसे दग्ध करे ॥ ८१ ॥

भिन्नत्युपेक्षिते दन्ते हनुकास्थिगतिर्ध्रुवम् । समूलं दशनं तस्मादुद्धरेद्भ्रमस्थि च ॥ ८२ ॥

ऐसे दांतकी उपेक्षा करनेसे अर्थात् नहीं उखाड़नेसे अर्थात् उसमें राध निकलने लगनी है, उस नाडीकी ठोड़ीकी हड्डीमें गति हांजाती है, इसकारण ऐसे दांतको और टूटी हुई दांतकी हड्डीको जड़ सहित उखाड़ डाले ॥ ८२ ॥

उद्धृते तूत्तरे दन्ते शोणितं संप्रसिच्यते । रक्तातियोगात्पूर्वोक्ता धोरा रोगा भवंति च ॥ ८३ ॥

ऊपरका दांत उखाड़नेसे रुधिर अधिक बहने लगता है और उस रुधिरके अधिक बहनेसे पूर्वोक्त भयंकर रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ८३ ॥

काणः सञ्जायते जन्तुरदितं चारय जायते । चलमप्युत्तरं दन्तमतो नापहरेद्विषक् ॥ ८४ ॥

वह रोगी उस ओरके नेत्रसे काणा होजाता है अथवा अर्द्धरोगसे पीडित होता है इस कारण बुद्धिमान् वैद्य ऊपरके हिलते हुए दांतोंको भी नहीं उखाड़े ॥ ८४ ॥

धावने जातिमदनस्वादुकण्टकखादिरम् ॥ ८५ ॥

चमेलीके पत्ते, मैनफल, गोखुरु और खैर इनके काथसे दांतोंको धोवे ॥ ८५ ॥

कषायैर्जातिमदन-कण्टकीस्वादुकण्टकैः । लोधखदिरमजिष्ठापृष्ठाह्वै-

श्चापि तत्कृतम् । तैलं संशोधनं तद्वि हन्यादन्तगतां गतिम् ॥ ८६ ॥

चमेलीके पत्ते, मैनफल, कटेरी और गोखुरु इनके काथको अथवा लोध, खैर, मजीठ और मुलेठी इनके क्वाथके द्वारा तेलको पकावे । यह तेल-दांतोंको शुद्ध करता है और दन्तगतनाडीकी गति (दांतोंके नसूर) को दूर करता है ॥ ८६ ॥

कषायं परतः कृत्वा पिष्ट्वा लोधादि-कल्कितम् । कण्टकीमदनो योज्यः स्वादुकण्टो विकङ्कतः ॥ एभिः कृतं कषायमपि नाडीधावनार्थं योज्यम् ८७

बडी कटेरी, मैनफल, गोखुरु और विकंकत इनका क्वाथ बनाकर उसमें लोध आदि औषधियोंके कल्कको मिलाकर उसको अथवा केवल क्वाथको नाडीको धोनेके लिये प्रयोग करे ॥ ८७ ॥

दन्तोपक्रमः ।

सुखोष्णाः स्नेहकवलाः सर्पिषस्त्रिवृ-तस्य च । निर्यूहश्चानिलघ्नानां दन्त-हर्षप्रमर्दनाः ॥ ८८ ॥

दंतहर्षरोगमें घृत, तैलादि स्नेहोका अथवा निसोतके कल्कके द्वारा पकाये हुए घृतका सुहाता २ कवल और काथ दंतहर्षरोगको दूर करता है ॥ ८८ ॥

स्नैहिकश्च हितो धूमो नस्यं स्नैहिक-मेव च । पेया रसा यवाग्वश्च क्षीरं सन्तानिका घृतम् ॥ शिरोवस्तिहि-तश्चापि क्रमो यश्चानिलापहः ॥ ८९ ॥

दंतहर्षरोगमें स्नैहिक धूम्रपान, स्नैहिक नस्य, पेया, रस, यवागू, दूधकी मलाई, घी, शिरोवस्ति और वातनाशक क्रिया ये सब हितकारक हैं ॥ ८९ ॥

दन्तानां तोदहर्षौ तु जायेते वातत-स्तयोः । उष्णतैलाज्यवातघ्ननिर्यूहाः कवलप्रहाः ॥ ९० ॥

वातके प्रकोपसे दांतोंमें तोड़नेसरीखी पीडा और हर्ष हो तो उन दोनोंको शमन करनेके लिए उष्ण तेल, घी, वातनाशक औषधियोंका क्वाथ और कवल इनका प्रयोग करे ॥ ९० ॥

अहिंसन्दन्तमूलानि शर्करामुद्धरे-
द्विषक् । लाक्षाचूर्णमधुयुतैस्तनस्तां
प्रतिसारयेत् ॥ ९१ ॥

दंतशर्करा रोग हो तो वैद्य दाँतोंकी जड़ोंको काट-
ती हुई दंतशर्कराको गन्धसे चीरकर निकाल डाले ।
फिर लाखके चूर्णको गहदमें मिलाकर दाँतोंमें
मले ॥ ९१ ॥

दन्तहर्षक्रियां चापि कुय्यान्निरवशे-
षतः । कपालिका कृच्छ्रतमा तत्रा-
प्येषा क्रिया हिता ॥ ९२ ॥

दंतहर्षमें जो चिकित्सा कही है वही सब दंतशर्क-
रामें भी करनी चाहिये । कपालिका-नामक दंतरोग
यद्यपि अत्यन्त कष्टसाध्य है तथापि उसपर दंतहर्षके
समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ९२ ॥

कृमिदन्तकमादौ तु सकृमिं गुडपूर-
णम् । दहेच्छलाकया क्षीरमार्कवं
कृमिनाशनम् ॥ ९३ ॥

कृमिदंतरोगमें प्रथम कृमियुक्त दाँतोंमें गुडफों
भरे, फिर लोहेकी गलाकासे दहन करे पश्चात् कृमि
नाशक आकका दूध भरे ॥ ९३ ॥

जयेद्विस्त्रावणैः स्विन्नमचलं कृमिद-
न्तकम् । तथावपीडैर्वातघ्नैः स्नेहगंडू-
षधारणैः । भद्रदाव्यादिवर्षाभूलेपैः
स्निग्धैश्च भोजनैः ॥ ९४ ॥

स्थिरपनको प्राप्त हुए कृमिदंतक नामक रोगको
स्वेदन देकर रुधिर निकलवावे । तथा वातनाशक
औपधियोंके अवपीडनोंसे, स्नेहपदार्थके द्वारा कुल्ले
करनेसे, भद्रदारु आदि गणके तथा पुनर्नवेके प्रलेपोंसे
और स्निग्धभोजनसे दूर करे ॥ ९४ ॥

कृमिदन्तापहं कोष्णं हिंशुदन्तान्तरे
स्थितम् ॥ ९५ ॥

हींगको कुछ गरम करके दाँतोंके बीचमें अर्थात्
डाढके तले दवानेसे कृमिदंतरोग दूर होता है ॥ ९५ ॥

बृहती भूमिकदम्बं पञ्चांगुलकण्ट-
कारिकाकाथः । गंडूषत्तैलयुतः कृ-
मिदन्तवेदनाशमनः ॥ ९६ ॥

बड़ी कटेरी, भूमिकदम्ब, अण्ड और कटेरी इनका
काथ बनाकर उसमें तेल मिलाकर उससे कुल्ले करनेसे
कृमिदंतकी पीडा शांत होती है ॥ ९६ ॥

नीलीवायसजङ्घास्तुगडुग्धीनां तु
मूलमेकैकम् । सध्वर्य दशनविधृतं द-
शनकृमिपातनं प्राहुः ॥ ९७ ॥

नीली, काकजंघा, थूहर और दुद्धी इन प्रत्येककी
जड़का चवाकर दाँतोंमें रखनेसे कृमिदंतरोग नष्ट
होता है ॥ ९७ ॥

बीजपूरकमूलस्य बाकुचीनां तथैव
च । भागाभ्यां तु समं कृत्वा
पिष्टा वर्तिन्तु कारयेत् ॥ ९८ ॥ एषा
रदस्थवर्तिस्तु दन्तैर्दन्तैर्निपीडयेत् ।
सद्योऽवस्थितमात्रा तु कृमिदन्त-
रुजापहा ॥ ९९ ॥

विजौरे नीवूकी जड़ और वापचीकी जड़ इन दो-
नोंको समान भाग लेकर एकत्र पीसकरके बत्ती
बना लेवे । इस बत्तीको दाँतोंमें धारण करे और
दाँतोंसे चावे । इस प्रकार करनेसे दंतकृमिरोग
तत्काल दूर होजाता है ॥ ९८ ॥ ९९ ॥

दन्तीसुवर्णदुग्धाकासीसविडङ्गवत्स-
कफलानाम् । चूर्णैरर्कस्तुह्योः पयो-
भिर्वा पूरणं श्रेष्ठम् ॥ १०० ॥

दंती, सत्यानासी, कटेरी, कसीस, वायविडंग और
इन्द्रजौ इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण बनाकर
दाँतोंमें रखनेसे अथवा आक या थूहरके दूधको दाँ-
तोंमें भरनेसे दाँतोंके कृमि दूर होते हैं ॥ १०० ॥

विदार्यादितैल ।

चलमुद्धृत्य च स्थानं विदहेच्छुषि-
रस्य च । ततो विदारीयष्ट्याहृङ्गा-
टककसेरुभिः । तैलं दशगुणे क्षीरे
सिद्धं नस्ये हितं भवेत् ॥ १०१ ॥

शौपिरांगके हिलते हुए दातको उखाड कर उस
स्थानको अग्निसे दग्ध करे । पश्चात् विदार्याकंद, मुलैठी,

सिंघाडे और कसेरु इनके कल्कके द्वारा दशगुने दूधमे तेलको पकाकर उस तेलकी नस्य देवे ॥१०१॥

**हनुमोक्षे समुद्दिष्टां कुर्याददितव-
त्क्रियाम् ॥ १०२ ॥**

हनुमोक्षदंतरोगमे अदितके समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १०२ ॥

बकुलाद्यतैल ।

बकुलस्य फलं लोधं वज्रवल्लीकुरण्ट-
कम् । चतुरंगुलबब्बोलवाजिकर्णा-
रिमाशनम् ॥ १०३ ॥ तेषां तु क्वा-
थकल्काभ्यां तैलं पक्वं मुखे धृतम् ।
स्थैर्यं करोति दन्तानां चलतां पवनेन
च ॥ १०४ ॥

मौलसिरीके फल, लोध, वज्रवल्ली, पियावांसा,
अमलतासकी जड, वचूर, अश्वकर्ण, खैर और विज-
यसार इनके काथ और कल्कके द्वारा तेलको पकावे।
यह तेल मुखमे धारण करनेसे वायुसे हिलते हुए
दांतको स्थिर करता है ॥ १०३ ॥ १०४ ॥

सहचराद्यतैल ।

तुलां घृतं नीलसहाचरस्य द्रोणे-
ऽम्भसः संश्रययेद्यथावत् । पूते चतु-
र्भागसे तु तैलं पचेच्छनैरर्द्धपलप्रयु-
क्तैः ॥ १०५ ॥ कल्कैरनन्ताखदिरा-
रिमेदाजंब्वाम्रयष्टीसधुकोत्पलानाम् ।
तत्तैलमाश्वेव धृतं मुखेन स्थैर्यं
द्विजानां विदधाति सद्यः ॥ १०६ ॥

नीले फूलके पियावांसाको १ तुला परिमाण लेकर
एक द्रोण जलमें पकावे । जब पकते पकते चौथाई
भाग जल बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेवे ।
फिर उसमे घी अथवा उत्तम तिलका तेल तथा धमा-
सा, खैर, दुर्गन्धित खैर, जामुन और आमकी छाल,
मुलैठी और कमल इन प्रत्येकका कल्क दो २ तोले
डालकर जनें जनें घृतको या तेलको पकावे । इस
तेलको मुग्गमे धारण करनेसे तत्काल दात स्थिर हो-
जाते हैं ॥ १०५ ॥ १०६ ॥

हरिद्राद्यतैल ।

उभे हरिद्रे पिप्पल्यः सैन्धवं देवदारु
च । विडङ्गं चित्रकं बिल्वं रोहि-
षस्य च पल्लवाः ॥ १०७ ॥ गन्धं सौ-
वर्चलं द्राक्षा मञ्जिष्ठा मधुकं बला ।
वेतसस्य च मूलानि पद्मकोशीरच-
न्दनैः ॥ १०८ ॥ बिल्वप्रमाणैः क-
ल्कैस्तु तैलप्रस्थं विपाचयेत् । द्विशु-
णं च पयो दद्यात् तत्सिद्धं नस्यतां
नयेत् ॥ १०९ ॥ श्लेष्मजं सन्निपातो-
त्थं शिरोरोगं नियच्छति । उपजिह्वां
च मालाश्च कण्ठशालूकमर्बुदम् ॥ ११० ॥
विदारिकां मांसपाकं मुखशोफं गल-
ग्रहम् । दन्तचालं हनुस्तम्भं तैलमे-
तन्नियच्छति ॥ १११ ॥

हलदी, दासहलदी, पीपल, सैधानमक, देवदारु,
वायविडंग, चीता, वेलगिरी, सुगन्धित रोहिसतृणके
पत्ते, कालीअगर, कालानमक, दाख, मर्जाठ, मुलैठी,
खिरैटी, वेंतकी जड, पद्माख, खस और चन्दन इन
प्रत्येकके चार चार तोले कल्कके साथ १ प्रस्थ तेलको
दुगुने दूधमे पकावे । यह तेल नस्य द्वारा प्रयोग
करनेसे कफज और सन्निपातज शिरोरोग, उपजिह्वा,
कण्ठमाला, कण्ठशालूक, अर्बुद, विदारिका, मांस-
पाक, मुखशोप, गलग्रह, दंतचालन और हनुस्तम्भ-
रोगको दूर करता है ॥ १०७-१११ ॥

लाक्षाद्यतैल ।

तैलं लाक्षारसं क्षीरं पृथक् प्रस्थं समं
पचेत् । चतुर्गुणमितैः क्वाथैर्द्रव्यैश्च
पलसंमितैः ॥ ११२ ॥ लोधकटफ-
लमञ्जिष्ठापद्मकेशरपद्मकैः । चन्दनो-
त्पलयष्ट्याह्वैस्तैलं गंडूषधारणम् ॥ ११३ ॥
दालनं दन्तचालश्च दन्तमोक्षं कपा-
लिकाम् । शीतादं पूतिवक्रश्च ह्यरु-
चिं विरसास्यताम् ॥ ११४ ॥ हन्या-
दाशु गदानेतान् कुर्यादन्तानपि

स्थिरान् । लाक्षादिकमिदं तैलं दन्त-
रोगेषु पूजितम् ॥ ११५ ॥

तिलका तेल, लाखका रस और उत्तम गायका
दूध ये प्रत्येक पदार्थ एक एक प्रस्थ तथा लोध, काय-
फल, मजीठ, कमलकेशर, पद्माख, चन्दन, कमल और
मुलैठी इनका उक्त औषधियोंसे चौगुना काथ और
इन्हीं औषधियोंका चार चार तोले कल्क लेवे ।
फिर सबको एकत्र मिला कर तेलको पकावे । यह
तेल गण्डूष धारण करनेसे दालन, दन्तचालन,
दंतमोक्ष, कपालिका, गीताद, मुखकी दुर्गंध, अरुचि
और मुखकी विरसता इन सब रोगोंको दूर करता है
तथा दांतोको स्थिर करता है । यह लाक्षादितैल दन्त-
रोगोंमें अत्यन्त हितकारी है ॥ ११२-११५ ॥

इरिमेदाद्यतैल ।

इरिमेदत्वक् पलशतमभिनवभापो-
थ्य खण्डशः कृत्वा । तोयाढकैश्चतु-
र्भिर्निष्काथ्यश्चतुर्थशेषेण ॥ ११६ ॥
काथेन तेन मतिमांस्तैलस्याद्घाटकं
पचेच्छनकैः । कल्कैरक्षसमांशैर्मिश्रिष्ठा-
लोध्रमधुकानाम् ॥ ११७ ॥ इरिमेदख-
दिरकटफललाक्षान्यग्रोधमुस्तसूक्ष्मै-
ला । कर्पूरागुरुपद्मकलवङ्गकङ्कोल-
जातीनाम् ॥ ११८ ॥ फलपतङ्गैरिक-
वरांगगजकुसुमधातकीनाश्च । सिद्धं
भिषग्विदध्यादिदं सुखोत्थेषु रोगेषु ॥
११९ ॥ परिशीर्णदन्तविद्रधिशीपि-
रशीताददन्तहर्षेषु । कृमिदन्तदर-
णचलितप्रदुष्टमांसावशीर्णेषु ॥ मुख-
दौर्गन्ध्येषु च कार्यं प्रागुक्तेष्वामयेषु
तैलमिदम् ॥ १२० ॥

नवीन दुर्गंध खैरकी छालको १०० पल लेकर
दुग्धे २ करके चार आढक जलमें पकावे जब पकते
२ जल चौथाई भाग ओष रह जाय तब उतार-
कर छान लेवे । फिर उस काथमें आधा आढक तेल
तथा मजीठ, लोध, मुलैठी, दुर्गंध खैर, कायफल,
लाग्न, वड, नागरमोथा, छोटीइलायची, कपूर, अमर,
पद्माख, लोंग, गीतलचीनी, जायफल, पतंग, गेरु,

दालचीनी, नागकेशर और धायके फूल इन प्रत्येकका
कल्क एक एक तोला मिलाकर यथा विधि धीरे धीरे
तेलको पकावे । फिर वैद्य इस तेलको सर्व प्रकारके
मुखरोग, शीर्णदन्त, दन्तविद्रधि, शौपिर, गीताद,
दन्तहर्ष, कृमिदन्त, दन्तचालन, दुष्टमांस, शीर्णमांस
मुखकी दुर्गंध और पूर्वोक्त सर्व प्रकारके मुखरोगोंमें
सेवन करावे ॥ ११६-१२० ॥

स्वल्पखदिरवटिका ।

खदिरस्य तुलां सम्यग् जलद्रोणे वि-
पाचयेत् । शेषेऽष्टभागे तत्रैव प्रतिवा-
पं प्रदापयेत् ॥ १२१ ॥ जातिकर्पू-
रूगानि कंकोलकफलानि च । इत्ये-
षा गुटिका कार्या सुखसौभाग्यव-
धिनी ॥ दन्तौष्ठगलरोगेषु जिह्वा-
ताल्वामयेषु च ॥ १२२ ॥

खैरकी उत्तम छालको एक तुला परिमाण लेकर
एक द्रोण जलमें पकावे । जब पकते पकते जल
आठवाँ भाग बाकी रह जाय तब उसको उतार कर
छान लेवे । फिर उस काथमें जायफल, कपूर, सुपारी
और कंकोल इन सब औषधियोंको डाल कर दुबारा
पकावे । जब वह पक कर खूब गाढा होजाय तब
उतार कर गोली बना लेवे इन गोलियोंको मुखमें
धारण करनेसे मुखमें सौभाग्यकी वृद्धि होती है ।
यह वटी दाँत, ओष्ठ, गला, जिह्वा और तालुरोगमें
अत्यंत उपयोगी है ॥ १२१ ॥ १२२ ॥

महाखदिरवटिका ।

गायत्रिसारतुल्यारिमवलकलानां
सार्द्धं तुलायुगलमम्बुघटैश्चतुर्भिः ।
निष्काथ्यपादप्रवशेषसुवस्त्रपतं भूयः
पचेदथ शनैर्मृदुपावकेन ॥ १२३ ॥
तस्मिन् घनत्वमुपगच्छति चूर्णमेषां
श्लक्ष्णं क्षिपेच्च कवलप्रहभागिकाना-
म् । एलामृणालसितचन्दनचन्दनानां
श्यामातमालविकसानललोहयष्टी
॥ १२४ ॥ लज्जाफलत्रयरसाञ्जनधा-
तकीनां श्रीपुष्पगैरिककटाहयकट-
फलानाम् । पद्माहलोध्रवटरोहयवा-

सकानां मांसीनिशासुरभिवल्कल-
संयुतानाम् ॥ १२५ ॥ कंकोलजाति-
कफकोशलवङ्गकानां चूर्णिकृतानि
विदधीत पलांशकानाम् । शीतेऽव-
तार्य्य घनसारचलुप्पलश्च क्षिप्त्वा क-
लायसदृशीं गुटिकां प्रकुर्यात् ॥ १२६ ॥
शुष्का मुखे विनिहिता विनिवारय-
न्ति रोगान् गलोष्ठरसनाद्विजतालु-
जातान् । कुय्यान्मुखे सुरभितां पटु-
तां रुचिश्च स्थैर्यान्वितश्च दशनं र-
सनालघुत्वम् ॥ १२७ ॥

खैरसार १ तुलापरिमाण और दुर्गाप खैरकी छाल
डेह तुला परिमाण लेकर दोनोको चार कुम्भ जलमें
पकावे । जब पकते पकते जल चौथाई भाग बाकी
रह जाय तब उतार कर छान लेवे । फिर इसको
दुवारा मन्द मन्द अग्निसे पकावे । जब वह पकते
पकते गाढा होजाय तब उसमें इलायची, कमलमूल
सफेद चन्दन, लालचन्दन, शारिवा, श्यामतमाल,
मजीठ, चीता, अगर, मुलैठी, लजावन्ती, त्रिफला,
रसौत, धायके फूल, लौंग, गेरू, कायफल, कमल-
कन्द, पद्माख, लोध, बडके अंकुर, जवासा, बालछड,
हलदी, गंधतूण, दालचीनी, कंकोल, जायफल,
जावित्री और लवंग, इन प्रत्येकका चूर्ण चार चार
तोले मिला देवे । जब वह पक कर स्वयं जीतल
हो जाय तब उसको नीचे उतार कर उसमें चार पल
कपूर मिला देवे और मटरके समान गोलियां बना-
लेवे । ये गोलियां सुखा कर मुखमें रखनेसे गलरोग,
ओष्ठरोग, जिह्वारोग, दन्तरोग, तालुरोग, तथा
अन्यान्य सर्व प्रकारके मुखरोगोको दूर करता है ।
एवं मुखमें सुगंधि, पटुता, रुचि, दाँतोमें स्थिरता
और जिह्वामें लघुता उत्पन्न करती है ॥ १२३-१२७ ॥

पथ्यापथ्य ।

फलान्यम्लानि शीताम्बुरूक्षान्नं द-
न्तधावनम् । तथातिकठिनान्भक्ष्या-
न् दन्तरोगी विवर्जयेत् ॥ १२८ ॥

दन्तरोगी खट्टेफल, शीतलजल, रूखा अन्न, दाँतोंन
करना और अत्यन्त कठिन पदार्थोंका भक्षण ये सब
त्याग देवे ॥ १२८ ॥

अथ जिह्वारोगनिदान ।

धातज, पित्तज, कफज, अग्राम और उपजिह्विका
इस प्रकार जीभके पाँच रोग हैं ।

वातजजिह्वारोगके लक्षण ।

जिह्वाऽनिलेन स्फुटिता प्रसृता भवेच्च
शाकच्छदनप्रकाशा ।

जिसमें जिह्वा कुछएक फुटयी गई हो, सट्टे, मीठे
रसोंके जानकां नर्ती जान सकती हो और सागानवृ-
क्षके पत्तोंके समान सरसरी हो वे वातसम्बन्धी
रोग जानना चाहिये ।

पित्तजजिह्वारोगके लक्षण ।

पित्तेन दह्यत्युपचीयते च दीर्घः सर-
त्तरापि कण्टकैश्च ॥ १२९ ॥

पित्तके प्रकोपसे जिह्वा दाहयुक्त बडे २ और
लाल २ काँटोंसे युक्त होती है ॥ १२९ ॥

कफजजिह्वारोगके लक्षण ।

कफेन गुर्वी बहुला चिता च मांसो-
च्छ्रये शाल्मलिकण्टकाभैः ॥ १३० ॥

कफके प्रकोपसे जिह्वा भारी और मोटी होती है
तथा उसमें सेमलके काँटोंके समान मांसके काँटोंसे
युक्त होती है ॥ १३० ॥

अल्लासके लक्षण ।

जिह्वातले यः श्वथुः प्रगाढः सोऽ-
ल्लाससंज्ञः कफरक्तमूर्त्तिः । जिह्वां स
तु स्तंभयति प्रवृद्धो मूले च जिह्वा
भृशमेति पाकम् ॥ १३१ ॥

कफरक्तके कोपसे जिह्वाके नीचे अत्यन्त कठोर
सूजन होती है, उसको अल्लास कहते हैं । और जब
वह अधिक बढजाती है तब जिह्वा जकड जाती है,
और जडमें पकने लगती है ॥ १३१ ॥

उपजिह्वके लक्षण ।

जिह्वाग्ररूपः श्वथुर्हि जिह्वासुन्नम्य
जातः कफरक्तमूलः । लालाकरः कं-
डुयुतः सचोषः सा तूपजिह्वा कथिता
भिषग्भिः ॥ १३२ ॥

कफ और रक्तके कोपसे जिह्वाके अग्रभागमें उत्पन्न हुई सूजन जिह्वाको ऊँचा कर देती है तब जिह्वा अनीके समान होजाती है उसमें लार अधिक बहती है, खुजली होती है और चूसनेके समान पीडा होती है उसको वैद्य उपजिह्वा कहते हैं ॥ १३२ ॥

जिह्वारोगकी चिकित्सा ।

जिह्वागतविकाराणां शस्तं शोणितमोक्षणम् । गुडूचीपिप्पलीनिम्बकवलः कटुभिर्युतः ॥ १३३ ॥

जिह्वागतरोगोंमें प्रथम रुधिर निकलवाना फिर गिलोय, पीपल और नीम इनका तीखे पदार्थोंके साथ कवल धारण करना श्रेष्ठ है ॥ १३३ ॥

पटोलकटुकव्योषपाठासैन्धवगर्भिभिः। चूर्णैर्मधुयुतैर्लेपः कवलो मधु-तैलिकः ॥ १३४ ॥

पटोलपत्र, कुटकी, त्रिकुटा, पाठ और सैधानमक इनका चूर्ण करके शहदमे मिलाकर जिह्वापर लेप करे । अथवा शहदमे तेल मिलाकर उसका कवल धारण करे ॥ १३४ ॥

विडङ्गपिप्पलीभ्यां तु धावनं सरसा-ञ्जनम् ॥ १३५ ॥

वायविडंग, पीपल और रसौत इनका काथ बनाकर जिह्वाको धोवे ॥ १३५ ॥

ओष्ठप्रकोपेऽनिलजे यदुक्तं प्राक् चिकित्सितम् । कण्ठकेष्वनिलोत्थेषु तत्कार्यं भिषजा खलु ॥ १३६ ॥

वातज ओष्ठरोगमें जो पहिले चिकित्सा कही है वही चिकित्सा वातजिह्वाके काँटेपर करनी चाहिये ॥ १३६ ॥

पित्तजेषु विवृष्टेषु निःसृजे दुष्टशोणिते । प्रतिसारणमंडूषं नस्यश्च मधुरं हितम् ॥ १३७ ॥

पित्तजन्य जिह्वारोगमें प्रथम जिह्वाको घिसकर दूषित रुधिरको निकाले, पश्चात् मधुर प्रतिसारण, मधुर कवल और मधुर नस्य इन सबको प्रयोग करे ॥ १३७ ॥

कण्ठकेषु कफोत्थेषु लिखितेष्वसृजः क्षये । पिप्पल्यादिर्मधुयुतः कार्य-स्तु प्रतिसारणे ॥ १३८ ॥

जो कफसे जिह्वाके ऊपर काँटे हों तो उन काँटोंको छील रुधिर निकलवावे, फिर पिप्पल्यादि गणकी औषधियोंको शहदमे मिलाकर प्रतिसारण करे ॥ १३८ ॥

गृहीयात्कवलांश्चापि गौरसर्षपसैन्धवैः । पटोलनिम्बवार्त्ताकुक्षारयूषैश्च भोजयेत् ॥ १३९ ॥

सफेद सरसो और सैधानमक इनका कवल धारण करे । तथा परवल, नीम, वैगुन, क्षार और यूष ये सब भोजन करे ॥ १३९ ॥

उपजिह्वां तु संलिख्य क्षारेण प्रतिसारयेत् । शिरोविरेकगंडूषधूमैश्चैनामुपाचरेत् ॥ १४० ॥

उपजिह्वा रोग हो तो उसको कतर कर क्षारसे प्रतिसारण करे और शिरोविरेचन, गण्डूष, धूम्रपान आदि उपचार करे ॥ १४० ॥

व्योषक्षाराभयावह्निश्चूर्णमेतत्प्रघर्षणम् । उपजिह्वाप्रशान्त्यर्थमेभिस्तैलं विपाचयेत् ॥ १४१ ॥

त्रिकुटा, जवाखार, हरड और चीता इनका चूर्ण बनाकर जिह्वाको घिसनेसे अथवा इनके द्वारा तेलको पकाकर कुले करनेसे उपजिह्वारोग जांत होता है ॥ १४१ ॥

वासाकाथो माक्षिकसैन्धवगृहधूममालतीयुक्तः । कुलित्थकेन निहन्यादुपजिह्विकां कण्ठघर्षणतः ॥ १४२ ॥

अडूसेके काथमें शहद, सैधानमक, घरका घुआँसा, मालतीके पत्त और कुलथी डालकर उससे जिह्वाके काँटोंको कण्ठपर्यन्त घिसनेसे उपजिह्वारोग जान होता है ॥ १४२ ॥

तालुरोगनिदान ।

तालुगतशुण्डीरोगके लक्षण ।

श्लेष्मासृग्भ्यां तालुमूलात्प्रवृद्धो दी-

वर्षः शोथो ध्मातवास्तिप्रकाशः । तृ-
ष्णाकासश्वासकृत्तं वदन्ति व्याधिं
वैद्याः कण्ठशुण्डीति नाम्ना ॥१४३॥

कफ और रुधिरके प्रकोपसे तालुकी जडमें अन्यन्त
बढी हुई, लम्बी भरी हुई मसकके समान एवं तृपा,
सौंसी तथा श्वासको उत्पन्न करनेवाली जो सूजन उत्पन्न
होती है उसको वैद्य गलशुण्डी कहते हैं ॥ १४३ ॥

तुण्डिकेरीके लक्षण ।

शोथः रथूलस्तोददाहप्रपाकी प्रागु-
क्ताभ्यां तुण्डिकेरी मता तु ।

कफ और रुधिरके प्रकोपसे तालुमें जो वनक-
पासके फलके समान मोटी सूजन होती है,
उसमें सुई चुभाने सरीखी पीडा तथा दाह और पाक
हो जाता है उसको तुण्डिकेरी कहते हैं ।

अभ्रूपके लक्षण ।

शोथो मन्दो लोहितः शोणितोत्थो

ज्ञेयोऽभ्रूपः सञ्जरस्तीव्ररुक् च ॥१४४॥

जब रुधिरके प्रकोपसे तालुमें मन्द लालरंगकी
ज्वर सहित और तीव्र पीडायुक्त सूजन होती है
उसको अभ्रूप जानना चाहिए ॥ १४४ ॥

कच्छपके लक्षण ।

कूर्मोत्सन्नोऽवेदनोऽशीघ्रजन्मा रोगो

ज्ञेयः कच्छपः श्लेष्मणा वा ।

कफके प्रकोपसे तालुमें कच्छुवेके समान बीचमें
ऊँची और चारों ओर नीची तथा अल्पपीडावाली
जो बहुत शीघ्र सूजन उत्पन्न होती है उसको वैद्य
कच्छपरोग कहते हैं ।

ताल्वर्बुदके लक्षण ।

पद्माकारं तालुमध्ये तु शोथं विद्या-

द्रक्ताद्वर्बुदं प्रोक्तलिङ्गम् ॥ १४५ ॥

तालुके बीचमें रुधिरके प्रकोपसे कमलकी केसर-
के समान लम्बे मांसके अंकुरोंसे वेष्टित और सम्पू-
र्ण पित्तके लक्षणोंसे युक्त जो सूजन होती है, उसको
वैद्य ताल्वर्बुद कहते हैं ॥ १४५ ॥

मांससंवातके लक्षण ।

दुष्टं मांसं नारुजं तालुमध्ये श्लेष्मा-
वद्धं मांससंवातमाहुः ।

कफके प्रकोपसे तालुके भीतर पीढारहित जो दुष्ट-
मांस एकत्रित होजाता है उसको मांससंवात कहते हैं ।

तालुपुष्पुटके लक्षण ।

नरिहक स्थायी कालमात्रः कफेन मे-
दोयुक्तः पुष्पुटस्तालुदेशे ॥ १४६ ॥

कफके प्रकोपसे तालुमें पीढारहित, स्थिर, और
मेदयुक्त वरीके फलके समान जो ग्रन्थि उत्पन्न
होती है उसको तालुपुष्पुट कहते हैं ॥ १४६ ॥

तालुशोषके लक्षण ।

शोषोऽत्यर्थं दीर्यति चापि तालु श्वा-
सश्चोप्रस्तालुशोषोऽनिलाच्च ।

वातके प्रकोपसे तालुमें अत्यन्त शोष होता है
तालुभा फटन लगता है और अत्यन्त उग्र श्वास हो
जाना है उसको तालुशोष कहते हैं ।

तालुपाकके लक्षण ।

पित्तं कुय्यात्पाकमत्यर्थघोरं तालु-
न्येवं तालुपाकं वदन्ति ॥ १४७ ॥

जब पित्त तालुमें अत्यन्त भयंकर पाक करता
है तब उसको तालुपाक कहते हैं ॥ १४७ ॥

तालुरोगकी चिकित्सा ।

युञ्ज्यात्कफहरं शुण्डीयां रसं गंडूष-
धारणे ॥ १४७ ॥

कण्ठशुण्डीरोगमें कफनाशक औषधियोंके
रसका गण्डूष धारण करे ॥ १४८ ॥

कुष्ठोषणावचासिन्धुकणापाठाप्लवैः

सह । सक्षौद्रैर्भिषजा कार्यं गलशुण्डी-
प्रघर्षणम् ॥ १४९ ॥

क्रुठ, कालीमिरच, वच, सैधानमक, पीपल, पाठ
और केवटीमोथा इनके चूर्णको गहवमें मिलाकर
घिसनेसे तालुशुण्डीरोग नष्ट होता है ॥ १४९ ॥

अङ्गुष्ठांगुलिसन्दंशेनाकृष्यगलशुण्डि-
काम् । छेदयेन्मण्डलात्रेण जिह्वो-
परि तु संस्थिताम् ॥ १५० ॥

जो गलशुण्डी जीभपर हो तो अंगूठे और
अंगुलीरूपी सण्डासीसे उसे खींच कर मण्डलाग्रना-
मक शस्त्रसे काट देवे ॥ १५० ॥

नोत्कृष्टश्चैव हीनश्च त्रिभागं छेदये-
द्विषक् ॥ १५१ ॥

गलशुण्डीको न अत्यन्त अधिक और न अत्यन्त
कम छेदन करे, किंतु मध्यभागको छेदे ॥ १५१ ॥

अत्यादानात् स्ववेद्रक्तं तन्निमित्तं मि-
थेत च । हीनच्छेदाद्भवेच्छोथो ला-
लास्रावो भ्रमस्तथा ॥ १५२ ॥ तस्मा-
द्वैद्यः प्रयत्नेन दृष्टकर्मणा विशारदः ।
गलशुण्डीं छेदयित्वा कुर्व्यात्प्राप्तमि-
मं क्रमम् ॥ १५३ ॥ नातिमूलेन चा-
प्यग्रे सम्यक् छेदं समाचरेत् । छि-
त्वा तां व्योषसिन्धूग्रासक्षौद्रैः प्रति-
सारयेत् ॥ १५४ ॥

गलशुण्डीके अधिक छिद जानेसे रुधिरका अत्य-
न्त स्राव होता है इस कारण मनुष्य मर जाता है और
कम छेदन होनेसे सृजन, लारका गिरना, भ्रम आदि
उपद्रव होते हैं इस कारण जिसने छेदनकी बहुतसी
क्रिया देखी हो ऐसा प्रवीण वैद्य यत्न पूर्वक गलशु-
ण्डीको काट कर पीछे निम्न लिखित उपचार करे ।
उसको न अत्यन्त जटमेसे ही छेदे और न अत्यन्त
आगेमे ही छेदे, किंतु बीचमेसे अच्छे प्रकारसे छेदे ।
छेदनेके पश्चात् त्रिकुटा, सैधानमक और वच इनके
चूर्णको गृह्णमे मिलाकर उसके ऊपर प्रतिसारण
करे ॥ १५२ ॥ १५३ ॥ १५४ ॥

गलशुण्डीशमं याति वज्रीक्षीरेण
लेपनात् ॥ १५५ ॥

शूहरके दूधका लेप करनेसे—गलशुण्डी शमन होती
है ॥ १५५ ॥

वचामतिविषां पाठां रास्नां कटुक-
रोहिणीम् । निष्काथ्य पिचुमन्दश्च
कवलं तत्र योजयेत् ॥ १५६ ॥

वच, अतीस, पाठ, रायसन, कुटकी और नमि
इनका काथ बनाकर उसको कवलधारण करे ॥ १५६ ॥

क्षारासिद्धेषु मुद्गेषु यूषाश्वाप्यशने-
हिताः ॥ १५७ ॥

इसमे जवाखारसे सिद्ध किया हुआ भूगका यूप
भोजन करे ॥ १५७ ॥

इङ्गुदी किणिही दन्ती सरलं देवदारु
च । पश्चाद्गां कारयेद्भक्तिमेतां गन्धो-
तरां भिषक् ॥ तस्या धूमं पिबेज्जन्तु-
द्विरह्नः कफनाशनम् ॥ १५८ ॥

हिगोट, चिराचिटा, दंती, धूपसरल और देवदारु
इनके पंचांगको लेकर उसका चूर्ण करके बत्ती बनावे।
रोगी मनुष्य उस बत्तीको सुवासित करके उसका
धुआँ पावे तो इससे दो दिनमे कफ नष्ट होजाताहै ॥ १५८ ॥

तुण्डिकेर्यश्रुषे कूर्मे संघाते तालुपु-
प्पुटे । एष एव विधिः कार्यो विशेषः
शस्त्रकर्मणि ॥ १५९ ॥

तुण्डिकेरी, अश्रुप, कच्छप, मांससंघात और तालु
पुप्पुटे इन रोगोमे भी ये ही सब चिकित्सा करनी
चाहिये । किन्तु शस्त्रक्रिया इनमे कुछ विशेषरूपसे
करनी चाहिये ॥ १५९ ॥

तालुपाके तु कर्त्तव्यं विधानं पित्त-
नाशनम् । स्नेहस्वेदौ तालुशोषे वि-
धिश्चानिलनाशनः ॥ १६० ॥

तालुपाकरोगमे पित्तनाशक विधि करनी चाहिये।
और तालुशोपरोगमे स्नेहन, स्वेदन तथा अन्यान्य
वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १६० ॥

गलरोगका निदान ।

सबसे प्रथम रोहिणीके

लक्षण कहते हैं ।

गलेऽनिलः पित्तकफौ च मूर्च्छितौ
प्रदूष्य मांसं च तथैव शोणितम् ।
गलोपसरोधकरैस्तथाङ्कुरैर्निहन्त्यसू-
व्याधिरयं हि रोहिणी ॥ १६१ ॥

गलेमें वृद्धिको प्राप्त हुआ वात, पित्त और कफ ये तीनों दोष मांस और रुधिरको दूषित करके गलेमें मांसके अंकुरोंको उत्पन्न करते हैं । उन अंकुरोंसे गला रूँध जाता है उसको रोहिणी कहते हैं । यह रोहिणी प्राणनाशक है ॥ १६१ ॥

वातजाके लक्षण ।

जिह्वासमन्ताद्भ्रूशवेदनास्तु मांसांकुराः कण्ठनिरोधनाः स्युः । सा रोहिणी वातकृता प्रदिष्टा वातात्मकोपद्रवगाढयुक्ता ॥ १६२ ॥

जिसमें जीभके चारों ओर अत्यन्त वेदनावाले और गलेको रोकनेवाले मांसके अंकुर हो और उनके साथ वातसम्बन्धीय स्तब्धता आदि उपद्रवभी होते हैं उसको वातोत्पन्नरोहिणी कहते हैं ॥ १६२ ॥

पित्तजाके लक्षण ।

क्षिप्रोद्गमा क्षिप्रविदाहपाका तीव्रज्वरा पित्तनिमित्तजा तु ।

जिसमें गलेमें मांसके अंकुर तत्काल उत्पन्न होजाते हैं उनमें तत्काल दाह और पाक होता है एवं तीव्रज्वर होता है तो उसको पित्तजरोहिणी कहते हैं ।

कफजाके लक्षण ।

स्रोतोनिरोधिन्यचलोन्नता च स्थिरांकुरा या कफसम्भवा सा ॥ १६३ ॥

जो गलेकी शिराओंको रोक कर गलेमें मांसके अंकुर उत्पन्न होते हैं और स्थिर ऊँचे तथा भारी होते हैं, मन्द मन्द पकते हैं, उसको कफरोहिणी कहते हैं ॥ १६३ ॥

त्रिदोषजाके लक्षण ।

गम्भीरपाकिन्यनिवार्यवर्या त्रिदोषलिङ्गा त्रितयोत्थिता तु ॥ १६४ ॥

गलेमें उपयुक्त तीनों दोषोंके लक्षणोंवाले, गम्भीर रूपसे एकनेवाले और कठिनतासे आराम होनेवाले जो मांसके अंकुर उत्पन्न होते हैं, उसको त्रिदोषरोहिणी कहते हैं ॥ १६४ ॥

रक्तजाके लक्षण ।

स्फोटैश्विता पित्तसमानलिङ्गा साध्या प्रदिष्टा रुधिरात्मका तु ॥ १६५ ॥

रक्तजरोहिणी छोटी छोटी फुंसियोंसे व्याप्त और पित्तजरोहिणीके समान लक्षणोंवाली होती है यह साध्य है ॥ १६५ ॥

रोहिणीकी मारनेकी अवधि ।

सद्यस्त्रिदोषजा हन्ति त्र्यहाच्छेषमसमुद्भवाः पश्चाहात्पित्तसंभूता सप्ताहात्पवनान्विता ॥ १६६ ॥

त्रिदोषजरोहिणी तत्काल मार देती है कफजा रोहिणी तीन दिनमें मारती है, पित्तजा रोहिणी पांच दिनमें मारती है और वातजा रोहिणी सात दिनमें मार देती है ॥ १६६ ॥

कण्ठशालूकके लक्षण ।

कोलास्थिमात्रः कफसम्भवो यो ग्रन्थिर्गल कण्ठकशुकभूतः । खरः स्थिरः शस्त्रनिपातसाध्यस्तं कण्ठशालूकमिति ब्रुवन्ति ॥ १६७ ॥

गलेमें कँठके समान, तथा धानकी अनीके समान वेदना उत्पन्न करनेवाले, खरखरे, कठिन वेरकी गुठलीके समान और शस्त्रकाटथ 'जो ग्रंथि हो उसको कण्ठशालूक कहते हैं यह ग्रंथि कफके प्रकोपसे होती है । और शस्त्रके द्वारा चीरनेसे आराम होती है ॥ १६७ ॥

अधिजिह्वके लक्षण ।

जिह्वाग्ररूपः श्वयथुः कफाच्च जिह्वोपरिष्ठादपि रक्तमिश्रात् । ज्ञेयोऽधिजिह्वः खलु रोग एष विवर्जयेदागतपाकमेनम् ॥ १६८ ॥

रक्तमिश्रित कफके प्रकोपसेजीभके ऊपर जीभकी अनीके समान जो सूजन होती है उसको अधिजिह्वा रोग कहते हैं यदि यह सूजन पक जाय तो इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ॥ १६८ ॥

बलयके लक्षण ।

बलास एवायतमुन्नतश्च ग्रन्थि करो-
त्यन्यगतिं निवार्य्य । तं सर्वथैवाऽप्रति-
वार्य्य वीर्य्यं विवर्जनीयं बलयं वद-
न्ति ॥ १६९ ॥

प्रकोपको प्राप्त हुआ कफ अन्नकी गतिको रोककर गलेमें लम्बी और ऊँची सूजनको उत्पन्न करता है उसको बलय कहते हैं । यह रोग किसी प्रकार भी आराम नहीं होता है इस कारण इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ॥ १६९ ॥

बलासके लक्षण ।

गलोपरोधं कुरुतः प्रवृद्धौ श्लेष्मानि-
लौ श्वासरुजोपपन्नम् । मर्मच्छिदं
दुस्तरमेतदाहुर्बलाससंज्ञं निपुणा
विकारम् ॥ १७० ॥

वृद्धिको प्राप्त हुए कफ और वायु गलेमें श्वास और पीडासहित, तथा हृदयके मर्मस्थलको छेदन करने वाली जो सूजन उत्पन्न करते हैं उसको वैद्य-लोग बलास कहते हैं यह रोग अत्यन्त दुस्तर है १७०

एकवृन्दके लक्षण ।

वृतोन्नतोऽन्तः श्वयथुः सदाहः
सकंडरोऽपाक्यमृदुर्गुरुश्च । ना-
न्नैकवृन्दः परिकीर्तितोऽसौ व्याधि-
र्बलासक्षतजप्रसूतः ॥ १७१ ॥

कफ और रक्तके प्रकोपसे गलेमें गोल, ऊँचे कि-नारो पर दाह और खुजली युक्त सूजन उत्पन्न होती है वह कुछ कुछ पकती है और कुछेक नरम एवं भारी होती है, उस रोगको एकवृन्द कहते हैं ॥ १७१ ॥

वृन्दके लक्षण ।

समुन्नतं वृत्तममन्ददाहं तीव्रज्वरं वृ-
न्दमुदाहरन्ति । तच्चापि पित्तक्षतज-
प्रकोपाज्ज्ञेयं सतोदं पवनात्मक-
न्तु ॥ १७२ ॥

पित्त और रक्तके प्रकोपसे गलेमें उँची, गोल, तीव्र दाह और तीव्र ज्वरयुक्त जो सूजन होती है

उसको वृन्द कहते हैं । इसमें यदि तोड़ने सरीखी पीडा हो तो इसको वातात्मक जानना चाहिये १७२

शतघ्नीके लक्षण ।

वर्तिर्घनाकण्ठनिरोधिनी तु चिता-
तिमात्रं पिशितप्ररोहैः । अनेकरुक्
प्राणहरी त्रिदोषाज्ज्ञेया शतघ्नी तु
शतघ्निरूपा ॥ १७३ ॥

गलेमें वक्तीके समान लम्बी, घन और कण्ठको रोकनेवाली सूजन हो, वह मासके अंकुरोके अधिक-तासे दाह व्यथा आदि उपद्रवोसे युक्त हो अनेक प्रकारके व्याप्त हो और प्राणनाशकशतघ्नी (तोप) शस्त्रके समान हो तो उसको शतघ्नी कहते हैं इसको त्रिदोषसे उत्पन्न हुआ जानना चाहिये ॥ १७३ ॥

गिलायुके लक्षण ।

ग्रन्थिर्गले त्वामलकास्थिमात्रः स्थि-
रोऽल्परुक् यः कफरक्तमूर्तिः । संल-
क्ष्यते सक्तमिवाशनश्च स शस्त्रसा-
ध्यस्तु गिलायुसंज्ञः ॥ १७४ ॥

कफ और रक्तके प्रकोपसे गलेमें आमलेकी गुठ-लीके समान, स्थिर और अल्पपीडावाली गाँठ उत्पन्न होती है उससे खयाहुआ अन्नका प्रास गलेमें अटक-तासा मालूम होता है इसको गिलायुरोग कहते हैं यह रोग गल क्रियाके द्वारा दूर होता है ॥ १७४ ॥

गलविद्राधिके लक्षण ।

सर्वं गलं प्राप्य समुत्थितो यः शोथो-
रुजः संति च यत्र सर्वाः । ससर्व-
दोषो गलविद्राधिस्तु तस्यैव तुल्यः
सलु सर्वजस्य ॥ १७५ ॥

जिसमें तीनों दोषोके कुपित होनेसे सर्व प्रकारकी वेदना वाली और समस्त गलेमें व्याप्त होकर जो सूजन उत्पन्न होती है, उसको कण्ठविद्राधि कहते हैं यह कण्ठविद्राधि त्रिदोषजविद्राधिके समान है ॥ १७५ ॥

गलायके कक्षण ।

शोथो महानन्नजलावरोधी तीव्र-
ज्वरो वायुगतेर्निहन्ता । कफेन जा-

ता रुधिरान्वितेन गले गलौघः परि-
कीर्तितोऽसौ ॥ १७६ ॥

कफ और रुधिरके प्रकोपसे गलेमें अन्न तथा जलको रोकनेवाली, उदानवायुकी गतिको हरनेवाली और तीव्र ज्वरवाली जो बड़ी सूजन उत्पन्न होती है उसको गलौघ कहते हैं ॥ १७६ ॥

स्वरघ्नके लक्षण ।

यस्ताम्यमानः श्वसिति प्रसक्तं भि-
न्नस्वरः शुष्कविमुक्तकण्ठः । कफोप-
दिग्धेष्वनिलायनेषु ज्ञेयः सतोदः श्व-
सनात् स्वरघ्नः ॥ १७७ ॥

जिसमें वायु निकलनेके मार्ग कफसे परिपूर्ण होजाते हैं, अन्धकारसा दीखता है, रोगी निरन्तर अत्यन्त कष्टसे श्वास लेता है, तथा स्वरभङ्ग होजाता है, कण्ठ सूखने लगता है और वह अन्नादि निगलनेमें असमर्थ हो जाता है तथा उसमें तोड़ने सरिखी पीडा होती है उसको स्वरघ्नरोग कहते हैं । यह वातसे उत्पन्न होता है ॥ १७७ ॥

मांसतनके लक्षण ।

प्रतानवान्यः श्वयथुः सकष्टो गलो-
परोधं कुरुते क्रमेण । स मांसतानः
कथितोऽवलम्बी प्राणप्रणुत्सर्वकृतो
विकारः ॥ १७८ ॥

अत्यन्त फैलनेवाली, लटकती हुई और अत्यन्त कष्ट देनेवाली क्रमक्रमसे जो सूजन गलेको रोक देती है उसको मांसतान रोग कहते हैं । यह रोग त्रिदोषसे उत्पन्न होनेवाला और प्राणनाशक है ॥ १७८ ॥

विदारीके लक्षण ।

सदाहतोदं श्वयथुं सुताम्रमन्तर्गले
पूतिविशीर्णमांसम् । पित्तेन विद्या-
द्वदने विदारीं पार्श्वे विशेषात्स तु
येन शते ॥ १७९ ॥

पित्तके प्रकोपसे गलेमें दाह, तोड़ने सरिखी तीव्रपीडा युक्त, अत्यन्त लाल, दुर्गन्धित और मांसको फाड़नेवाली जो सूजन उत्पन्न होती है, उसको विदारी कहते हैं वह मनुष्य जिस करवटसे अधिक हाता है उर्षी पार्श्वमें यह रोग उत्पन्न होता है १७९ ॥

गलरोगोंकी चिकित्सा ।

साध्यानां रोहिणीनाश्च हितं शो-
णितमोक्षणम् । छर्दनं धूमपानञ्च गं-
डूषो नस्यकर्म च ॥ १८० ॥

साध्यरोहिणीमें प्रथम रक्तमोक्षणकर्म अर्थात् रुधिर निकलवाना, फिर वमन, धूमपान, गण्डूष और नस्यकर्म इन सबका प्रयोग करना उपयोगी है ॥ १८० ॥

तथान्तर्बाह्यतः स्वित्रां वातरोहिणि-
कां लिखेत् । अंगुलीशस्त्रकेनाशु प-
टुयुक्तं नखेन वा ॥ १८१ ॥

फिर अन्तर और बाहरकी वातरोहिणीको स्वेदित करके जीत्र अंगुलीनामक शस्त्रसे अथवा लवणयुक्त नखसे जल्दी लेखन करे ॥ १८१ ॥

वातकी तु हते रक्ते लवणैः प्रतिसा-
रयेत् । सुखोष्णान् स्नेहकवलान् धा-
रयेच्चाप्यभीक्षणशः ॥ १८२ ॥

वातजरोहिणीमें प्रथम रुधिर निकलवाकर पश्चात् सैधानामक आदि लवणोंसे प्रतिसारण करे । और सुहाते २ उष्ण स्नेहोंके कवलको वारंवार धारण करे ॥ १८२ ॥

विश्राव्य पित्तसंभूतां सिताक्षौद्रप्रि-
यंगुभिः । वर्षयेत्क्षौद्रपत्तङ्गैः शर्करा-
भिस्तथायुतैः ॥ १८३ ॥

पित्तसे उत्पन्न हुई रोहिणी हो तो उसमेंसे रुधिर निकलवाकर खाँड, शहद और फूलप्रियंगू इनसे प्रतिसारण करे । अथवा शहद, पतंग और खाँड इनको एकत्र मिलाकर प्रतिसारण करे ॥ १८३ ॥

द्राक्षापरूषकक्वाथो हितश्च कवल-
ग्रहे । उपाचरेदेवमेतां सुवैद्यः पित्त-
संभवाम् ॥ १८४ ॥

दाख और फालसे इनका काथ कवल धारण कर-
नेमें अत्यन्त श्रेष्ठ है इसलिए उत्तम वैद्य पित्तजरो-
हिणीकी उक्त प्रकारका कवल धारण कराकर चिकित्सा करे ॥ १८४ ॥

आगारधूमकटुकैः कफजां प्रतिसा-
रयेत् ॥ १८५ ॥

कफजरोहिणीपर घरका धुआसा और त्रिकुटेका चूर्ण इन दोनोंके द्वारा प्रतिसारण करे ॥ १८५ ॥

श्वेताविडङ्गदन्तीभिस्तैलं सिद्धं ससै-
न्धवम् । नस्यकर्मणि दातव्यं कव-
लञ्च कफोच्छ्रये ॥ १८६ ॥

कफजरोहिणीमें सफेदकोइल, वायविडंग, दंती और सैधानमक इनके कल्कके द्वारा पकाये हुए तेलकी नस्य देवे, अथवा इस तेलका कवल धारण करे ॥ १८६ ॥

रोहिणीकण्ठशालूकतुण्डिकेरीगला-
युषु । विद्रधौ वृन्दके श्रेष्ठ रोचना-
ताक्षर्यगैरिकाः ॥ सलोध्रमधुपत्तङ्ग-
क्षौद्रैर्गण्डूषधारणम् ॥ १८७ ॥

रोहिणी, कण्ठशालूक, तुण्डिकेरी, गलायु, विद्रधि और वृन्द इन सब रोगोंमें गोरोचन, रसौत, गेरू, लोध, मुलैठी, पतंग और शहद इनका गण्डूष धारण करे ॥ १८७ ॥

विस्त्राव्य कण्ठशालूकं साधयेत्तुण्डि-
केरिवत् । एककालं यवान्नञ्च भुञ्जीत
स्निग्धमल्पशः ॥ १८८ ॥

कण्ठशालूकमेंसे रुधिर निकलवाकर तुण्डिकेरीके समान चिकित्सा करे और दिनरातमें एकवार थोडासा स्निग्ध जीवा भोजन करे ॥ १८८ ॥

उपजिह्वकवच्चापि साधयेदधिजिह्वि-
कम् । उन्नम्य जिह्वामाकृष्य बडि-
शेनाधिजिह्विकाम् ॥ छेदयेन्मण्डला-
त्रेण तीक्ष्णोष्णैर्घर्षणादिभिः ॥ १८९ ॥

अधिजिह्वककी चिकित्सा उपजिह्वकके समान करे । जीभको उठाकर और अधिजिह्वको सण्डासी से पकड करके अच्छे प्रकारसे खींचकर मण्डलात्र नामक शस्त्रसे छेदे फिर तीक्ष्ण और उष्ण औषधियोंके चूर्णसे घर्षण करे ॥ १८९ ॥

एकवृन्दं तु विस्त्राव्य विधिं शोधन-
माचरेत् । गिलायुश्चापि यो व्याधि-
स्तं च शस्त्रेण साधयेत् ॥ १९० ॥

एक वृन्दमेंसे प्रथम रुधिर निकलवाकर पश्चात् शोधन विधि करे और गिलायुको शस्त्रसे छेदकर सिद्ध करे ॥ १९० ॥

अमर्मस्थन्तु सम्पक्कं छेदयेद्गलविद्र-
धिम् । कण्ठरोगेष्वसृङ्मोक्षस्तीक्ष्णै-
र्नस्यादिकर्म च ॥ १९१ ॥

कण्ठविद्रधि जो मर्ममें न हो और वह अच्छे प्रकारसे पक गई हो तो शस्त्रसे छेदे । प्रायः सर्वप्रकारके कण्ठरोगोंमें प्रथम रुधिर निकलवाकर फिर तीक्ष्ण नस्यादिका प्रयोग करना चाहिए ॥ १९१ ॥

क्वाथं पिबेच्च दावींत्वङ्निम्बता-
क्षर्यकलिङ्गजम् । हरीतकिकषायो
वा हितो माक्षिकसंयुतः ॥ १९२ ॥

दारुहलदी, नीमकी छाल, रसौत और इंद्रजौ इनका काथ बनाकर पान करनेसे अथवा केवल हर-
डके काथमें शहद डालकर पान करनेसे गलरोग नष्ट होता है ॥ १९२ ॥

कटुकातिविषादारुपाठामुस्तकलि-
ङ्गजः । गोमूत्रकथितः पीतः कण्ठरो-
गविनाशनः ॥ १९३ ॥

कुटकी, अतीस, देवदारु, पाठ, नागरमोथा और कुडकी छाल इनका गोमूत्रमें काथ बनाकर पीनेसे कंठके समस्त रोग नष्ट होते हैं ॥ १९३ ॥

मृद्रीकाकटुकाव्योषं दावीं त्वक् त्रि-
फलाघनम् । पाठारसाञ्जनं मूर्वा ते-
जोहेति सुचूर्णितम् ॥ १९४ ॥ क्षौद्र-
युक्तं विधातव्यं गलरोगे भिषङ्म-
तम् । योगाश्चैते त्रयः प्रोक्ता वात-
रक्तकफापहाः ॥ १९५ ॥

दाख, कुटकी, त्रिकुटा, दारुहलदी, त्रिफला, नाग-
रमोथा, पाठ, रसौत, मूर्वा और तेजबल इनका चूर्ण करके शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे गलरोग नष्ट होता है । ये उपर्युक्त तीनों योग-वात, रुधिरदोष और कफको नष्ट करनेवाले हैं ॥ १९४ ॥ १९५ ॥

सितादिघृत ।

सितातमालपत्राभ्यां भरिचं द्विशुणं
न्यसेत् । तेन सर्पिर्विपक्वन्तु नस्या-
ङ्गन्याद्गलग्रहान् ॥ १९६ ॥

मिश्री १ भाग, तमालपत्र १ भाग और काली-
मिरच २ भाग लेकर इनके कल्कके द्वारा घृतको
पकावे । फिर इस घृतके द्वारा नस्य देवे तो गलग्रह
नष्ट होते हैं ॥ १९६ ॥

कालकचूर्ण ।

ग्रहधूमो यवक्षारः पाठा व्योषं रसा-
ञ्जनम् । तजोह्वात्रिफला लोध्रं चित्र-
कश्चेति चूर्णितम् ॥ १९७ ॥ सक्षौद्रं
धारयेदतद्गलरोगविनाशनम् । का-
लकं नाम तच्चूर्णं दन्तास्यगलरोग-
नुत् ॥ १९८ ॥

घरका धुआँसा, जवाखार, पाढ, त्रिकुटा, रसौत,
तेजवल, त्रिफला, लोध और चीता ये सब औषधि
समान भाग लेकर चूर्ण कर लेवे । इस चूर्णको शह-
दमे मिलाकर मुखमें धारण करनेसे सर्व प्रकारके
गलेके रोग नष्ट होते हैं । यह कालकनामक चूर्ण-
दत्त, मुख और गलेके समस्त रोगोंको नष्ट करनेवाला
है ॥ १९७ ॥ १९८ ॥

पीतकचूर्ण ।

मनःशिलायवक्षारो हरितालं ससै-
न्धवम् । दार्वीत्वक् चेतितच्चूर्णं मा-
क्षिकेण समायुतम् ॥ १९९ ॥ मूर्च्छितं
घृतमण्डेन कण्ठरोगेषु धारयेत् । मु-
खरोगेषु च श्रेष्ठं पीतकं नाम कीर्त्ति-
तम् ॥ २०० ॥

मैनशिल, जवाखार, हरताल, सैधानमक और
दारुहलदी, इन सबको चूर्ण करके शहदमे मिलाकर
घृतके मण्डसे मूर्च्छित करके मुखमें धारण करे तो
सर्व प्रकारके कण्ठरोग और मुखरोग नष्ट होते हैं
यह पीतक नामक चूर्ण-मुखरोगोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ
है ॥ १९९ ॥ २०० ॥

यवक्षारादिगुटिका ।

गवाग्रजं तेजवतीं सपाठां रसाञ्जनं
दारुनिशाञ्च कृष्णाम् । क्षौद्रेण कु-
र्याद्गुटिकां रुखेन तां धारयेत्स-
र्वगलामयेषु ॥ २०१ ॥

जवाखार, तेजवल, पाढ, रसौत, दारुहलदी, हल्दी
और पीपल इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण
करके शहदमे मिलाकर गोली बनालेवे । इन गोलि-
योंको मुखमें धारण करनेसे सर्वप्रकारके गलरोग नष्ट
होते हैं ॥ २०१ ॥

क्षारगुटिका ।

पञ्चकोलकतालीशपत्रेलामारिचत्व-
चः । पलाशमुष्ककक्षारयवक्षाराश्च
चूर्णिताः ॥ २०२ ॥ गुडे पुराणे द्वि-
गुणे कथिते गुटिकाः कृताः । कर्क-
न्धुमात्राः सप्ताहं स्थिता मुष्ककम-
स्मनि । कण्ठरोगेषु सर्वेषु धार्याः
स्युरमृतोपमाः ॥ २०३ ॥

पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, सोठ, ताली-
शपत्र, इलायची, कालीमिरच, दालचीनी, ढाकका
खार, मोखेका खार और जवाखार ये प्रत्येक
औषधि समान भाग और सबसे दुगुना पुराना गुड़
लेवे । सबको एकत्र पका कर छोटे बेरकी बराबर
गोलियो बनालेवे फिर उन गोलियोंको सात दिनतक
मोखेकी भस्ममें रख देवे । ये गोलियाँ सबप्रकारके
कण्ठरोगोंमें मुखमें धारण करनेसे अमृतके समान
गुण करती हैं ॥ २०२ ॥ २०३ ॥

अथ सर्वमुखगत रोगका निदान ।

वातजमुखपाकके लक्षण ।

स्फोटैः सतोदैर्बदनं समन्ताद्यस्या-
ऽऽचितं सर्वसरः स वातात् ॥ २०४ ॥

जिसका मुख तोढने सरीखी पीडा करनेवाले
छालोंसे चारों ओरसे भरा हुआ हो उसको वातसे
उत्पन्न हुआ सर्वसर रोग जानना चाहिए ॥ २०४ ॥

पित्तजमुखपाकके लक्षण ।

रक्तैः सदाहैस्तनुभिः सपीतैर्यस्या-
चित्श्चापि स पित्तकोपात् ॥ २०५ ॥

जिसका मुख लाल और पीले रंगके दाहयुक्त
छोटे २ छालोंसे व्याप्त हो, उसको पित्तके प्रकोपसे
हुआ सर्वसररोग जानना चाहिए ॥ २०५ ॥

कफजमुखपाकके लक्षण ।

अवेदनैः कण्डुयुतैः सवर्णैर्यस्याचित-
श्चापि स वै कफेन ॥ २०६ ॥

जिसके समस्त मुखमें अल्प पीडायुक्त, खुजली वाले और मुखमें वर्णके समान वर्णवाले छाले भरे हों, उसको कफजनित सर्वसररोग समझना चाहिए ॥ २०६ ॥

सर्वमुखगत रोगोंकी चिकित्सा ।

वातात्सर्वसरं चूर्णैर्लवणैः प्रतिसारयेत् । तैलं वातहरैः सिद्धं हितं कवलनस्ययोः ॥ २०७ ॥

वातजमुखपाकरोगमें लवण आदिके चूर्णोंसे प्रतिसारण करे । और वातनाशक औषधियोंके द्वारा तेलको पकाकर कवल तथा नस्यकर्ममें प्रयोग करे ॥ २०७ ॥

स्नेहिक धूमः ।

ततोऽस्मै स्नेहिकं धूममिमं दद्याद्विचक्षणः । शालराजादनैरण्डसारैर्गुदिमधूकजाः ॥ २०८ ॥ मज्जानो गुग्गुलुध्याममांसीकालानुशारिवाः । श्रीसर्जरसशैलेयमधूच्छिष्टानि वा हरेत् ॥ २०९ ॥ तत्सर्वं सुकृतं चूर्णं स्नेहेनालोढ्य युक्तितः । टुण्टूकवृन्तं सक्षौद्रं मतिमांस्तेन लेपयेत् ॥ २१० ॥

इसके पश्चात् प्रवीण वैद्य रोगीके लिये स्नेहिक धूम्रपान करावे फिर जाल, खिरनी, अण्ड, हिंगोट और महुआ इनके फलोंकी मींग, गूगल, रोहिप, सुगंधिततृण, बालडड, भूरिल्लीला, लोवान, राल, पत्थरका फूल और मोम इन सबका एकत्र अच्छे प्रकारसे चूर्ण करके घृत अथवा तेलमें युक्तिपूर्वक मर्दन करे । फिर शहदमें मिलाकर उसको गुण्ठलपर लेप करे ॥ २०८ ॥ २०९ ॥ २१० ॥

एष सर्वसरे धूमः प्रशस्तः स्नेहिको मतः ॥ कफघ्नो मारुतघ्नश्च मुखरोगविनाशनः ॥ २११ ॥

इसका सर्वसरनामक मुखपाकरोगमें धूम्रपान करनेसे कफ और वातरोग नष्ट होता है तथा सर्वप्रकारके मुखरोग नष्ट होते हैं ॥ २११ ॥

सर्वसरोपक्रम ।

पित्तात्मके सर्वसरे शुद्धकायस्य देहिनः । सर्वपित्तहरः कार्यो विधिर्मधुरशीतलः ॥ २१२ ॥

पित्तजनित सर्वसररोगमें वमन विरेचनादिसे शरीरको शुद्ध करके रोगीको सम्पूर्ण पित्तनाशक मधुर और शीतल क्रिया करनी चाहिए ॥ २१२ ॥

प्रतिसारणगंडूषधूमसंशोधनानि च । कफात्मके सर्वसरे क्रमं कुर्यात्कफापहम् ॥ २१३ ॥

कफजनित सर्वसररोगमें प्रतिसारण, गण्डूषधारण, धूम्रपान और वमन विरेचनादि द्वारा शरीरको संशोधन करना चाहिए । उस क्रमसे सब कफनाशक चिकित्सा करनी चाहिए ॥ २१३ ॥

मुखपाके शिरावेधः शिरःकायविरेचनम् । मधुमूत्रघृतक्षीरैः शीतैश्च कवलग्रहः ॥ २१४ ॥

मुखपाकरोगमें—शिरावेध, शिरोविरेचन और शरीरविरेचन करना तथा शहद, गोमूत्र, घी और दूध इनके द्वारा कवल धारण करना अथवा शीतल पदार्थोंका कवल धारण करना चाहिए ॥ २१४ ॥

जातीपत्रामृताद्राक्षायसदावर्षिकलत्रिकैः । काथः क्षौद्रयुतः शीतो गंडूषो मुखपाकनुत् ॥ २१५ ॥

चमेलीके पत्ते, गिलोय, दाख, जवासा, दारुहलदी और त्रिफला इनका काथ बनाकर उसको शीतल करके उसमें शहद डालकर गण्डूष धारण करे तो मुखपाकरोग नष्ट होता है ॥ २१५ ॥

कार्यश्च बहुधा नित्यं जातीपत्रस्य चर्वणम् । कृष्णजीरककुष्ठेन्द्रियवर्चवणतल्लयहात् । मुखपाकत्रणक्लेददोर्गन्ध्यमुपशाम्यति ॥ २१६ ॥

चमेलीके पत्तोंको सदैव चबानेसे अथवा कालाजीरा, कूठ और इन्द्रजौ इनको एकत्र मिलाकर तीन दिन तक चबानेसे मुखपाक, त्रण, क्लेद और मुखकी दुर्गंध दूर होती है ॥ २१६ ॥

पटोलनिम्बजम्बामालतीनवपल्ल-
वैः । पञ्चपल्लवजः श्रेष्ठः कषायो मुख-
धावने ॥ २१७ ॥

पटोलपत्र, नीम, जामुन, आम और चमेलीके
नवीन पत्ते इन पंचपल्लवोका काथ बनाकर मुख
धावनेके लिये प्रयोग करे ॥ २१७ ॥

स्वरसः कथितो दाव्या घनीभूतो
रसक्रिया । सक्षौद्रा मुखरोगासृग्दो-
षनाडीव्रणापहा ॥ २१८ ॥

दारुहलदीको जलमे डालकर पकावे, जब वह
पकते पकते अत्यन्त गाढा होजाय तब शहद डाल-
कर प्रयोग करे । इससे मुखरोग, रुधिरविकार और
नाडीव्रणरोग दूर होता है ॥ २१८ ॥

सप्तच्छदोशीरपटोलमुस्ताहरतिकी-
तिक्तकरोहिणीभिः । यष्ट्याह्वराज-
द्रुमचन्दनैश्च काथं पिबेत्पाकहरं मु-
खस्य ॥ २१९ ॥

सतौना, खस, पटोलपत्र, नागरमोथा, हरड, कु-
टकी, मुलैठी, अमलतास और लालचन्दन इनका
काथ बनाकर पान करनेसे मुखपाकरोग दूर होता है
॥ २१९ ॥

पटोलशुण्ठीत्रिफलाविशालात्राय-
न्तितिकाद्विनिशामृतानाम् । पी-
तः कषायो मधुना त्रिहन्ति मुखे
स्थितश्चास्य गदानशेषान् ॥ २२० ॥

पटोलपत्र, सोठ, त्रिफला, इद्रायण, त्रायमाण,
कुटकी, हलदी, दारुहलदी और गिलोय इनका काथ
शहद मिलाकर पान करनेसे सर्वप्रकारके मुख
रोगोको नष्ट करता है ॥ २२० ॥

तिला नीलोत्पलं सर्पिः शर्कराक्षीर-
मेव च । क्षौद्राढयो दग्धवक्रस्य गं-
डूषो मुखपाकनुत् ॥ २२१ ॥

तिल, नीलोत्पल (नीलोफर), घी, मिश्री, दूध
और गहद इन सबको एकत्र मिलाकर गण्डूष
वारण करनेसे मुखपाकरोग दूर होता है, जलनेसे
मुखमे उत्पन्न हुए पाकको नष्ट करनेकी यह उत्तम
औपधि है ॥ २२१ ॥

आस्वादिता च सकृदपि मुखगन्धं
सकलमपनयति । त्वग्बीजप्रफलजा
पवनसुपक्वं च नाशयति ॥ २२२ ॥

विजौरैर्नार्वूके फलके कल्कको एक डार खानेसे
मुखकी दुर्गन्ध और वातजनित मुखपाक रोग दूर
होता है ॥ २२२ ॥

जातीफलजातिपत्रीफणिज्जवाह्निक-
कुष्ठसञ्चरिता । अपहरति पूतिगन्धं
मुखज्वरे संस्थिता गुटिका ॥ २२३ ॥

जायफल, जावित्री, वनतुलसी, केशर और कूठ
इनको सनात भाग लेकर गोली बनाकर मुखमे रख-
नेसे ज्वरमें उत्पन्न हुई मुखकी दुर्गन्ध दूर होती है
॥ २२३ ॥

कुष्ठैलवालुकैलामुस्ताधान्याकयाष्टि-
मधुकवलाः । हरति मुखपूतिगन्धं
रसोनमदिरादिगन्धश्च ॥ २२४ ॥

कूठ, एलुआ, इलायची, नागरमोथा, धनियाँ,
मुलैठी और खिरैटी इनको एकत्र पीसकर मुखमे
रखनेसे मुखकी दुर्गन्ध तथा लहसुन और मदिरा
आदिकी गन्ध भी दूर होती है ॥ २२४ ॥

हरिद्रानिम्बपत्राणि मधुकं नीलमु-
त्पलम् । तैलमेभिर्विपक्तव्यं मुख-
पाकहरं परम् ॥ २२५ ॥

हलदी, नीमके पत्ते, मुलैठी और नीलकमल
इनके कल्कके द्वारा तेलको पकाकर प्रयोग करनेसे
मुखपाक रोग दूर होता है ॥ २२५ ॥

यष्टीतैल ।

यष्टीमधु पलमेकं त्रिंशन्नीलोत्पलस्य
तैलस्य । प्रस्थश्च द्विगुणं पयोविधिना
पक्वं तु नस्येन ॥ २२६ ॥ निशिवद-
नस्य स्रावं क्षपयति गात्रस्य दोष-
संघातम् । वपुःस्वर्णत्वभवश्यं क्र-
मशोऽभ्यङ्गेन जन्तूनाम् ॥ २२७ ॥

मुलैठी ४ तोले, नीलकमल ३० पल, तिलका तेल
१ प्रस्थ और गायका दूध २ प्रस्थ लेवे । इन सबको

एकत्र मिला कर विधिपूर्वक तेलको पकावे । इस तेलकी रात्रिके समय नस्य देनेसे मुखका स्याव और शरीरके दोष दूर होते हैं और मालिग करनेसे शरीर स्वर्णके समान सुन्दर होजाता है ॥ २२६ ॥ २२७ ॥

मुखरोगोंमें असाध्य रोग ।

मुखगत समस्त असाध्यरोगोंको

कहते हैं:-

ओष्ठप्रकोपे वर्ज्याः स्युर्मांसरक्तत्रि-
दोषजाः । दन्तमूलेषु वर्ज्यो च त्रि-
लिङ्गगतिर्शोषिरौ ॥ २२८ ॥ दन्तेषु
च न सिध्यन्ति श्यावदालनभञ्जनाः ।
जिह्वागतेष्वलासस्तु तालुजेष्वर्बुदं
तथा ॥ २२९ ॥ स्वरघ्नो वलयो वृन्दो
वलासः सविदारिकः । गलौघो मां-
सतानश्च शतघ्नी रोहिणीगले ॥ २३० ॥
असाध्याः कीर्त्तिता ह्येते रोगा नव-
दशैव तु । तेषु चापि क्रियां वैद्यः
प्रत्याख्याय समाचरेत् ॥ २३१ ॥

ओष्ठरोगोंमें मांसजनित, रक्तजनित और त्रिदोष जनित रोग असाध्य है । दंतमूल (मसूढेके) रोगोंमें त्रिदोषजनित नाडीघ्न और शोषिर असाध्य है । दंतरोगोंमें श्याव, दालन और भजन असाध्य हैं । जिह्वारोगोंमें अलास असाध्य है । तालुरोगोंमें अर्बुद और गलरोगोंमें स्वरघ्न, वलय, वृन्द, वलास, विदारी, गलौघ, मांसतान, शतघ्नी और रोहिणी ये सब रोग असाध्य हैं । इस प्रकार ये १९ उन्नीस मुखरोग असाध्य कहे गये हैं । यदि इनकी चिकित्सा करे तो वैद्य प्रथम यह कह देवे कि, ये रोग असाध्य हैं । पर विचार पूर्वक इनको असाध्य समझ कर छोड़े भी नहीं, क्योंकि कदाचित् औषध करनेसे रोगी आरोग्य हो ही जाय ॥ २२८ ॥ २२९ ॥ २३० ॥ २३१ ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकाया मुखरोगाधि-
कार समाप्त ॥ ६४ ॥

अथ कर्णरोगाधिकार ।

कर्णरोगका निदान ।

समीरणः श्रोत्रगतोऽन्यथाचरन्समन्त-
तः शूलमतीव कर्णयोः । करोति
दोषैश्च यथास्वभाववृतः स कर्णशूलः
कथितो दुराचरः ॥ १ ॥

कानोंमें चारों ओर विपरीत गतिसे विचरण करता हुआ वायु अपने २ निदानोंसे प्रकृषित हुए कफ, पित्त और रुधिर इन दोषोंसे आवृत होकर उसी उसी दोष के अनुसार कानोंमें अत्यन्त भयकर शूल उत्पन्न करता है, उसको कर्णशूल कहते हैं यह रोग दुश्चिकित्स्य है अर्थात् कठिनतासे आरोग्य होता है ॥ १ ॥

कर्णनादके लक्षण ।

कर्णस्रोतः स्थिते वाते शृणोति वि-
विधानस्वरान् । भेरीमृदङ्गशङ्खानां
कर्णनादः स उच्यते ॥ २ ॥

जब कानके छिद्रमें विविध प्रकारका वायु स्थित होता है तब मनुष्य विविध प्रकारके स्वरोको तथा भेरी, मृदङ्ग, शंख इत्यादि अनेक प्रकारके शब्दोंको सुनता है इसको कर्णनाद रोग कहते हैं ॥ २ ॥

बाधिर्यके लक्षण ।

यदा शब्दवहं वायुः स्रोत आवृत्य
तिष्ठति । शुद्धः श्लेष्मान्वितो वापि
बाधिर्यं तेन जायते ॥ ३ ॥

कफ संयुक्त अथवा केवल वायु जब शब्दवाहिनी नाडीको रोक कर कानमें रहता है तब उससे बाधिरता अर्थात् बहरापन होता है ॥ ३ ॥

कर्णक्ष्वेडके लक्षण ।

वायुः पित्तादिभिर्युक्तो वेणुघोषोपमं
स्वनम् । करोति कर्णयोः क्ष्वेडं कर्ण-
क्ष्वेडः स कीर्त्तितः ॥ ४ ॥

जब पित्तादिके साथ मिला हुआ वायु कानोंमें प्राप्त होकर वेणुके शब्दके समान गन्ध उत्पन्न करता है तब उसको कर्णक्ष्वेड कहते हैं ॥ ४ ॥

✓ कर्णस्त्रावके लक्षण ।

शिरोऽभिघातादथवा निमज्जनाज्जले
प्रपाकादथवापि विद्रधेः । स्रवेद्वि
पूयं श्रवणोऽनिलादितः स कर्णसंस्त्रा-
व इति प्रकीर्तितः ॥ ५ ॥

शिरमें चोटके लगनेसे या जलमें डूबनेसे अथवा
कानमें विद्राधिके पकनेसे वायु कुपित होकर कानो-
मेंसे राधको या रसको अथवा जलको बहाती है,
इसको कर्णस्त्राव कहते हैं ॥ ५ ॥

✓ कर्णकण्डूके लक्षण ।

मारुतः कफसंयुक्तः कर्णकण्डूं करोति च ।

कफसंयुक्त वायु जब कानमें खुजली उत्पन्न करता
है तब उसको कर्णकण्डू कहते हैं ।

✓ कर्णगूथके लक्षण ।

पित्तोष्मशोषितः श्लेष्मा जायते क-
र्णगूथकः ॥ ६ ॥

पित्तकी उष्णतासे जब कफ कानमें सूख कर मल-
रूप होजाता है तब उसको कर्णगूथ कहते हैं ॥ ६ ॥

✓ कर्णप्रतिनाहके लक्षण ।

स कर्णगूथो द्रवतां यदा गतो विला-
यितो घ्राणमुखं प्रपद्यते । तदा
स कर्णप्रतिनाहसंज्ञितो भवेद्विकारः
शिरसोऽर्द्धभेदकृत् ॥ ७ ॥

वह कर्णगूथ अर्थात् कानका मैल जब तैलादिस्ने-
हके डालनेसे पिघल कर स्वेद देनेसे पतला होकर मुख
और नासिकामें प्राप्त होता है तब उसको कर्णप्रति-
नाह कहते हैं । यह अर्द्धावभेदक अर्थात् आधासी-
सीको उत्पन्न करता है ॥ ७ ॥

✓ कृमिकर्णके लक्षण ।

यदा तु मूर्च्छन्त्यथवापि जन्तवः सृ-
जन्त्यपत्यान्यथवापि मक्षिकाः । त-
दञ्जनत्वाच्छ्रवणो निरुच्यते भिष-
ग्भिराद्यैः कृमिकर्णको गदः ॥ ८ ॥

जब कानमें कृमि पड़ जाते हैं अथवा कानोंमें
मक्खिया वैठ कर जो अपने अण्डे बच्चे रखती हैं तब
कानोंमें कृमिकेसे लक्षण दीखते हैं इस लिए इसको
कृमिकर्णरोग कहते हैं ॥ ८ ॥

कानमें पतंगादिकृमि

घुसनेके लक्षण ।

पतङ्गाः शतपद्यश्च कर्णघ्नोतः प्रविश्य
हि । अरतिं व्याकुलत्वञ्च भृशं कुर्व-
न्ति वेदनाम् ॥ ९ ॥ कर्णो निस्तुद्य-
ते तस्य तथा च फुरफुरायते । कीटे
चरति रुक्तीव्रा निस्पन्दे मन्दवेद-
ना ॥ १० ॥

पतंग, कानखजूरा, या कानसलाई आदि कानमें
घुस कर वेचैनी, वेकली और अत्यन्त पीडाको उत्पन्न
करते हैं और उस मनुष्यके कानमें तीव्र नाचने व
छेदने सरीखी पीडा होती है । जब वह कृमि कानके
भीतर कुलकुलाता और चलता है उस समय अत्य-
न्त तीव्र पीडा होती है और जब वह चलनेसे रुक-
जाता है तब पीडा भी कम होजाती है ॥ ९ ॥ १० ॥

द्विविधकर्णविद्राधिके लक्षण ।

क्षताभिघातप्रभवस्तु विद्रधिर्भवेत्त-
था दोषकृतोऽपरः पुनः । स पी-
तनीलारुणमस्रमास्रवेत्प्रतोदधूमा-
यनदाहचोषवान् ॥ ११ ॥

जो घावके होजानेसे अथवा चोटके लग जानेसे
कानमें विद्रधि होती है उसमेंसे लाल पीले और नीले
रंगके रुधिरका स्त्राव होता है । और जो वातादि
दोषोंके द्वारा दूसरे प्रकारकी विद्रधि होती है, उसमें
चीरने सरीखी पीडा होती है, धुआँसा निकलता है,
तथा दाह और चूसनेके सरीखी पीडा होती है ॥ ११ ॥

✓ कर्णपाकके लक्षण ।

कर्णपाकस्तु पित्तेन कोथविक्लेदकृ-
द्रवेत् । कर्णविद्रधिपाकाद्वा जायते
चाम्बुपूरणात् ॥ १२ ॥

पित्तके कुपित होनेसे या कानकी विद्राधिके पक-
नेसे अथवा कानमें जल भरजानेसे कर्णपाकरोग हो-
ता है । उस समय कानमें दुर्गन्ध और गलिपन
रहता है ॥ १२ ॥

✓ प्रतिकर्णके लक्षण ।

पूयं स्रवाति यः प्रूतिः स ज्ञेयः प्रूतिक-
र्णकः ।

कानमेसे जो दुर्गन्धयुक्त राघ बहती है, उसको पूतिकर्ण कहते हैं ।

कर्णशोथादिकोंके लक्षण ।

कर्णशोथार्बुदार्शासि जानीयादुक्त-
लक्षणैः ॥ १३ ॥

कर्णशोथ, कर्ण अर्बुद और कर्णअर्श इनके लक्षण शोथ, अर्बुद और अर्शरोगके लक्षणोंके समान जानने चाहिये ॥ १३ ॥

वातजकर्णरोगके लक्षण ।

नादोतिरुक्कर्णमलस्य शोषः स्राव-
स्तनुश्चाश्रवणञ्च वातात् ।

चरकने जो चार प्रकारके कर्णरोग कहे हैं, उनको कहते हैं । वातजकर्णरोगमें शब्द होता है, अत्यन्त वेदना हांती है, कानका मैल सूख जाता है, थोड़ा २ बहता और सुनाई नहीं आता है ।

पित्तजकर्णरोगके लक्षण ।

शोथः सरागो द्रवणं विदाहः सपीत-
पूतिस्रवणञ्च पित्तात् ॥ १४ ॥

जो लाल सूजन हो, दाह हो, कान फटता हो और दुर्गन्धयुक्त पीला स्राव होता हो तो उसको पित्तसे उत्पन्न हुआ कर्णरोग जानना चाहिए ॥ १४ ॥

कफजकर्णरोगके लक्षण ।

वैश्रुत्यकंडूस्थिरशोथशुक्लाः स्निग्धा
सृतिः श्लेष्मभवेऽल्परुक् च ।

कफजकर्णरोगमें विपरीत सुनना अर्थात् कहे कुछ और सुने कुछ, खुजली, कठिन सूजन तथा सफेद और चिकनी राघ बहती है एव अल्पपीडा होती है ॥

सन्निपातजके लक्षण ।

सर्वाणि रूपाणि च सन्निपातात्स्रा-
वश्च तत्राधिकदोषवर्णः ॥ १५ ॥

त्रिदोषज (सन्निपातज) कर्णरोगमें ये सब लक्षण मिलते हैं सर्वप्रकारका स्राव होता है अथवा जो दोष अधिक होता है उसी रंगका स्राव होता है ॥ १५ ॥

परिपोटकके लक्षण ।

सौकुमार्याच्चिरोत्सृष्टे सहसेवातिव-
र्द्धिते । कर्णे शोथो भवेत्पाल्यां स-

रुजः परिपोटवान् ॥ कृष्णारूपानि-
भः स्तब्धः स वातात्परिपोटकः ॥ १६ ॥

अधिक समयतक कानमें कोई भारी आभूषण पहरनेसे अथवा अन्य कोई वस्तु डालकर ऐसे ही छोड़ देनेसे सुकुमारताके कारण उसमें सहसा अत्यन्त सूजन होजाती है, पीडा होती है और किंचित् कान फट जाता है उसमें कालापन मिला हुआ लाल और जकड़ा हुआसा जो शोथ होता है उसको परिपोटक कहते हैं, यह रोग वायुसे होता है ॥ १६ ॥

उत्पातके लक्षण ।

गुर्वाभरणसंयोगात्ताडनाद्द्वर्षणादपि।
शोथः पाल्यां भवेच्छ्यावो दाहपाक
रुजान्वितः ॥ रक्तो वा रक्तपित्ता-
भ्यामुत्पातः स गदो मतः ॥ १७ ॥

कानमें भारी आभूषण पहरनेसे या किसी प्रकारकी चोटके लगनेसे अथवा कानके रगड़े जानेसे रक्त पित्तके कुपित होनेके कारण कानकी पालिमें काली और लाल रंगकी मिली हुई, तथा लाल, दाह पीडा पाकयुक्त जो सूजन उत्पन्न होती है, उसको उत्पात कहते हैं ॥ १७ ॥

उन्मन्थकके लक्षण ।

कर्णं बलाद्द्वर्द्धयतः पाल्यां वायुः प्र-
कुप्यति । कफं संगृह्य कुरुते शोफं
स्तब्धमवेदनम् ॥ उन्मन्थकः सकंडू-
को विकारः कफवातजः ॥ १८ ॥

कानको बलात्कार बढ़ानेसे पालीमें वायु प्रकुपित होजाता है फिर वह वायु कफको सञ्चित करके वहा स्तब्धतायुक्त, अल्पवेदनावाली और खुजली सहित सूजनको उत्पन्न करता है, उसको उन्मन्थकरोग कहते हैं । यह रोग कफ और वायु इन दोनोंके प्रकोपसे होता है ॥ १८ ॥

दुःखवर्द्धनके लक्षण ।

संवर्द्धमाने दुर्विद्धे कण्डूदाहरुजान्वि-
तः । शोथो भवति पाकश्च त्रिदोषो
दुःखवर्द्धनः ॥ १९ ॥

अयोग्य प्रकारसे कानको छेदनेपर और बढानेपर उसमें खुजली, दाह और पीडा सहित मूजन होती है और पाक होता है । इस रोगको दुःखवर्द्धन कहते हैं । यह रोग तीनों दोषोंसे होता है ॥ १९ ॥

परिलेहीके लक्षण ।

कफासृक्कमयः क्रुद्धाः सर्षपाभा
विसर्षिणः कुर्वन्ति पिटिकाः पाल्यां
कण्डूदाहसमन्विताः ॥ २० ॥ कफा-
सृक्कामिसंभूतः स विसर्षन्नितस्ततः ।
लिहेच्च सकलां पालीं परिलेहीति
स स्मृतः ॥ २१ ॥

कफ, रुधिर और कृमि कुपित होकर कानकी पाली खुजलीवाली और दाहयुक्त सरसोंके समान फुन्सियोंको उत्पन्न करते हैं । यह रोग चारोंओरको फैलता हुआ कानके छेदको तथा-पाली (कानकी-लौंर) को मासरहित करडालता है । कफ, रुधिर और कृमि इनके प्रकोपसे हुआ यह रोग परिलेही कहलाता है ॥ २० ॥ २१ ॥

कर्णरोगोंकी चिकित्सा ।

कर्णशूले प्रणादे च बाधिर्ये क्ष्वेड एव
च । चतुर्णामपि रोगाणां सामान्यं
भेषजं विदुः ॥ २२ ॥

कर्णशूल, कर्णनाद, बाधिर्य और क्ष्वेड इन चारों कर्णरोगोंकी एकसी औषध करनी चाहिये ॥ २२ ॥

स्निग्धं वातहरैः स्नेहैर्नरं वापि वि-
रेचयेत् । भुक्तोपरि हितं सर्षिर्वास्ति-
कर्म च पूजितम् ॥ २३ ॥

कर्णशूलमें स्निग्ध और वातनाशक स्नेह पदार्थोंके द्वारा रोगको स्निग्ध करके विरेचन करावे तथा भोजनके पश्चात् घृतपान और वास्तिकर्म प्रयोग करे ॥ २३ ॥

कोष्णं पयोऽनुपानञ्च त्रिरात्रं पाययेद्
घृतम् ॥ २४ ॥

घृतको मन्दोष्ण दूधके साथ तीन दिनतक पान करानेमें कर्णशूल नष्ट होता है ॥ २४ ॥

अश्वत्थपत्रखलं वा विधाय बहुप-
त्रकम् । तैलाक्तमङ्गारपूर्णं निदध्या-
च्छ्रवणोपरि ॥ २५ ॥ यत्तैलं व्यवते
तस्मात्खल्लादङ्गारतापितात् । तत्प्राप्तं
श्रवणस्रोतःसद्यो गह्णाति वेदनामृ२६ ॥

पीपलके पत्तोंको तेलमें भिजाकर उनका छिद्र-युक्त दौना बनाकर उसको अगारोपर रखके अगारोपर तपानेसे उन दोनोंमेंसे जो तेल टपके उस तेलको कानमें डाले तो कानकी पीडा तत्काल शांत होती है ॥ २५ ॥ २६ ॥

शृङ्गवेरञ्च मधुकं सैन्धवं तैलमेव च ।
कटुष्णं कर्णयोर्द्वयमेतद्वा वेदनाप-
हम् ॥ २७ ॥

अदरख, मुलैठी, सैवानमक और तेल इनको एकत्र पकाकर सुहाता २ कानमें डालनेसे कानकी पीडा दूर होती है ॥ २७ ॥

कपित्थमातुलुङ्गाम्लशृङ्गवेररसैः शु-
भैः । सुखोष्णैः पूरयेत्कर्णं कर्णशूलो-
पशान्तये ॥ २८ ॥

कैथ, विजोरा नीवू, कौजी और अदरख इनका रस निकालकर उसको गरम करके सुहाता २ कानमें डालनेसे कर्णशूल शांत होता है ॥ २८ ॥

लशुनार्द्रकशिग्रूणां सुरङ्ग्या मूल-
कस्य च । कदल्याः स्वरसः श्रेष्ठः
कटुष्णं कर्णपूरणे ॥ २९ ॥

लहसुन, अदरख, सहिजना और लाल सहिजनेकी जड़ तथा केला इन सबके स्वरसको कुछ एक गरम करके कानमें डालना कानके शूलमें हितकर है ॥ २९ ॥

कर्णं कोष्णेन शुक्तेन पूरयेत्कर्णशूलि-
नः । समुद्रफेनचूर्णेन शुक्त्या वाप्यव-
चूर्णयेत् ॥ ३० ॥

कानकी पीडावाले रोगीके कौजीको कुछ एक गरम करके उसमें समुद्रफेन अथवा सीपका चूर्ण मिलाकर कानमें डालनेसे कानकी पीडा शांत होती है ॥ ३० ॥

अर्काकुरानम्लपिष्टांस्तैलाक्तौल्लवणा-
न्वितान । सन्निदध्यात्स्नुहीका-
ण्डे कौरिते तच्छदावृते ॥ ३१ ॥ पु-
टपाकक्रमात्स्विन्नं पीडयेदारसाग-
मात् । सुखोष्णं तद्रसं कर्णे दापये-
च्छूलशान्तये ॥ ३२ ॥

आकके अंकुरोंको काँजीमे पीसकर उनमें तेल
और सैधानमक मिलाकर सेंडेके डडेके भीतर भर-
देवे फिर उसको कपरीटी आदिसे चढ़ करके पुट
पाककी विधिसे पकावे । जब वह शीतल होजाय
तब उसमेंसे रस निचोड कर सुहाता सुहाता कानमे
डाले तो कानका शूल शांत हो जाता है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

दीपिकातैल ।

महतः पञ्चमूलस्य काष्ठान्यष्टांगुला-
नि च । क्षौभिनाविष्टय संसिच्य तैले-
नादीपयेत्ततः ॥ ३३ ॥ यत्तैलं व्यवते
तेभ्यः सुखोष्णं तत्प्रदापयेत् । ज्ञेयं
तदीपिकातैलं सद्यो गृह्णाति वेद-
नाम् ॥ ३४ ॥

बृहत्पचमूलकी आठ अंगुल परिमाण लकडी
लेकर उसको कपडेसे घेष्टित कर और तेलमे भिजो-
कर दीपकके योगसे जलावे उसमेंसे टपक टपककर
जो तेल गिरे, उसको ग्रहण करे उस तेलको सुहाता २
कानमें डालनेसे कानका शूल तत्काल शांत हो जाता
है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

एवं कुर्याद्भद्रकाष्ठे कुष्ठे काष्ठे च सा-
रले । मतिमान्दीपिकातैलं कर्णशूल-
निवारणम् ॥ ३५ ॥

इसीप्रकार बुद्धिमान् मनुष्य देवदारु, कूठ और
धूपसरलकी लकडियोंको भी जलाकर तेल ग्रहण करे
यह तेल भी कानके शूलको दूर करता है ॥ ३५ ॥

अर्कस्य पत्रं परिणामपीतमाच्येन
लिप्तं शिखिनावतप्तम् । आपीडय
तोयं श्रवणे निषिक्तं निहन्ति शूलं
बहुवेदनञ्च ॥ ३६ ॥

आकके पके हुए पत्तोंको लेकर उनपर घी चुपड-
कर दीपककी लोय अथवा आग्नि पर सेके फिर उनके

रसको निचोडकर कानमे डालनेसे तो अत्यन्त वेद-
नासहित कानका शूल तत्काल दूर होता है ॥ ३६ ॥

तीव्रशूलातुरे कर्णे सशब्दे क्लेदवा-
हिनि । छागमूत्रं प्रशंसन्ति कोष्णं सै-
न्धवसंयुतम् ॥ ३७ ॥

अत्यन्त शूलसे पीडित रोगीके शब्द करते हुए
और वहते हुए कानमे बकरेके मूत्रको गरम करके
उसमें सैधानमक मिलाकर सुहाता २ डालनेसे
तत्काल शूल शांत होता है ॥ ३७ ॥

एरण्डपत्रपुटपाकविपाचिताम्बु तु-
ल्यार्द्रकस्य सलिलं मधुकेन मिश्रम् ।
पक्त्वा च तैललवणेन युतं सुखोष्णं
कर्णे रुजं हरति तत्क्षणमेव दत्तम् ॥ ३८ ॥

अण्डके पत्तोंको पुटपाककी विधिसे पकाकर उनका
रस निकाल लेवे फिर उसमें समान भाग अदरख-
वा रस, गृहद, तेल और सैधानमक पकावे । जब
वह अच्छे प्रकारसे पकजाय तब उसको सुहाता
सुहाता कानमें डाले । इसके कानमे डालते ही
कानकी पीडा तत्क्षण शांत हो जाती है ॥ ३८ ॥

विल्वैरण्डार्कवर्षाभूदधित्योन्मत्तशि-
शुभिः । वत्सगन्धाश्वगन्धाभ्यां तर्का-
रीयवरेणुभिः ॥ ३९ ॥ आरनालशृ-
नैरेभिर्नाडीस्वेदः प्रयोजितः । कफ-
वातसमुत्थानं कर्णशूलं निवारयेत् ४० ॥

बलगिरी, अण्डकी जड़, आक, पुनर्नवा, कैथ,
धतूरा, सीहजना, अजगंध, (वनतुलसी या अजमो-
द,) असगंध, अरणी, इन्द्रजौ और रेणुका इन
सबको समान भाग लेकर काँजीमे पकावे । फिर
इससे कानकी नाडीमे स्वेद देवे तो कफवातजनित
कर्णशूल नष्ट होता है ॥ ३९ ॥ ४० ॥

रास्नागुग्गुल ।

रास्नामृतैरण्डलुराह्वविथं तुल्यं पुरे-
णापि विमर्द्य खादेत् । वातामयी
कर्णशिरोगदी च नाडीत्रणी चैव भ-
गन्दरी च ॥ ४१ ॥

रायसन, गिलोय, अण्डकी जड़, देवदारु और
सोठ ये सब समान भाग लेवे और सबके बराबर

गूगल लेवे इन सबको एकत्र मर्दन करके सेवन करे तो इससे वातरोग, कर्णशूल, शिरोरोग, नाडीव्रण और भगन्दर रोग दूर होता है ॥ ४१ ॥

वंशावलेखसंयुक्ते मूत्रे वाऽऽजाविके
भिषक् । तैलं पचेत्तेन कर्णं पूरयेत्क-
र्णशूलिनः ॥ ४२ ॥

वैद्य बांसकी छालको भेड या वकरीके मूत्रमे डालकर उसमे तेलको पकावे । उस तेलको कानकी पीडावाले रोगीको कानमे डालनेसे कर्णरोग नष्ट होता है ॥ ४२ ॥

कर्णपूरणविधि ।

धारयेत्पूरणं कर्णं कर्णशूलं विमर्दये-
त् । रुजः स्यान्मार्दवं यावन्मात्राश-
तमवेदनम् ॥ ४३ ॥

कानको तेलसे भरकर उसको तबतक एक ओरको रक्खे जबतक पीडा कम न हो, मृदुता न हो और सौ १०० तक मात्रा पूरी न हो जाय फिर उसको मर्दन करे । इस प्रकार करनेसे कर्णशूल नष्ट हो जाता है ॥ ४३ ॥

मात्रा लक्षण ।

यावत्पर्येति हस्ताग्रं दक्षिणं जानुम-
ण्डलम् । निमेषोन्मेषकालेन समं
मात्रा तु सा स्मृता ॥ ४४ ॥

हाथको वहिनी जंघाके ऊपर फेरकर चुटकी व-
जानेमे जितना समय लगे अथवा आँखको खोलने
मीचनेमे जितना समय लगे उसको एक मात्रा
कहते है ॥ ४४ ॥

श्योनाकतैल ।

तैलं श्योनाकमूलेन मन्दाग्नौ परिसा-
धितम् । हरेदाशु त्रिदोषोत्थं कर्णशू-
लं प्रपूरणात् ॥ ४५ ॥

श्योनाककी जडके कल्कके साथ मन्द मन्द
अग्निके द्वारा तेलको पकाकर कानमें भरनेसे त्रिदोष-
जनित कर्णशूल नष्ट होता है ॥ ४५ ॥

हिंवादितैल ।

हिंगुतुम्बुरुशुण्ठीभिः साध्यं तैलं स-
सार्षपम् । कर्णशूले प्रधानं तत्पूरणं
हितमुच्यते ॥ ४६ ॥

हींग, तुम्बुरु, सोठ और सरसो इनके तेलको
उत्तम प्रकारसे पकाकर कानमें डाले यह तेल कर्ण-
शूलमें अत्यन्त हितकारी है ॥ ४६ ॥

देवदार्वदितैल ।

देवदारुवचाशुण्ठीशताह्वाकुष्ठसैन्ध-
वैः । तैलं सिद्धं हि गोमूत्रे कर्णशू-
लनिवारणम् ॥ ४७ ॥

देवदारु, वच, सोठ, शतावर, कूठ और सैधान-
मक इनके कल्कके द्वारा गोमूत्रमे तेलको पकावे ।
यह तेल कर्णशूलको नष्ट करता है ॥ ४७ ॥

पिप्पल्यादितैल ।

पिप्पल्यो बिल्वमूलश्च कुष्ठं मधुकमेव
च । सूक्ष्मैलादेवदारूणि मांसव्या-
घ्रीनखीगुरु ॥ ४८ ॥ गर्भेणानेन तै-
लस्य प्रस्थं मृद्भ्रिना पचेत् । केयूर-
मूलकरसौ दद्यात्स्नेहेन संयुतौ ॥ ४९ ॥
तेन कर्णे पितुं दद्याद्भस्तिकर्म च
कारयेत् । तेनोपशाम्यते क्षिप्रं कर्ण-
शूलं सुदारुणम् ॥ ५० ॥

पीपल, बेलकी जड, कूठ, मुलैठी, छोटी इलायची,
देवदारु, बालछड, कटेरी, नख और अगर इनके
कल्कके द्वारा एक प्रस्थ तेलको मन्द मन्द अग्निके
पकावे और इसमे केयूर (केमुआ) और मूर्त्तिका
रस स्नेहके साथ मिलाकर डाल देवे । विधिपूर्वक
इस तेलको सिद्ध करे । इस तेलका फाया कानमे
रक्खे और इसके द्वारा वस्तिकर्म करे । इससे
दारुण कर्णशूल जीव्र गमन होजाता है ॥ ४८-५० ॥

वातरोगे च निर्दिष्टा क्रिया चात्र
प्रयोजयेत् । स्नानं शीतांबुसंपानं मे-
थुनश्च विवर्जयेत् ॥ ५१ ॥

वातरोगमे जो चिकित्सा कही है, वही चिकित्सा
इस कर्णरोगमे भी प्रयोग करनी चाहिये । इसमें
शीतल जलसे स्नान और शीतलजलका पान तथा
मैथुनकर्म ये सब त्याग देवे ॥ ५१ ॥

पित्तजे शर्करायुक्तं घृतस्निग्धं विरेच-
नम् । द्राक्षायष्टीशृतं क्षीरं शस्यते
कर्णपूरणम् ॥ ५२ ॥

पित्तजकर्णरोगमें मिश्रयुक्त घी और चिकने
पदार्थोंका विरेचन देवे । दाख और मुलेठी इनको
दूधमें औटाकर पान करे, यह कर्णपूरणमें उत्तम
है ॥ ५२ ॥

पित्तवद्रक्तजे कुर्याच्छिराया रक्त-
मोक्षणम् । कफजे मागधीसिद्धं हवि-
र्दुग्धं प्रवाप्य च ॥ कुर्याद्गण्डूषसं-
स्वेदं धूमनं कफनाशनम् ॥ ५३ ॥

रक्तजकर्णरोगमें पित्तके समान चिकित्सा करे
तथा गिरात्रेध कर रक्तमोक्षण करावे । कफजकर्णरो-
गमें पीपलके कल्कके द्वारा सिद्ध कियेहुए घृतको
दूधमें डालकर गण्डूष धारण करे, स्वेद देवे और
कफनाशक धूप देवे ॥ ५३ ॥

कर्णश्वेडे कर्णनादे कटुतैलेन पूरयेत् ।
नादवाधिर्ययोः कुर्यात्कर्णशूलोक्त-
मौषधम् ॥ ५४ ॥

कर्णनाद और कर्णश्वेडमें कडवे तेलको कानमें
भरे । कर्णनाद और वाधिर्यरोगमें कर्णशूलोक्त
औषध प्रयोग करे ॥ ५४ ॥

कफजे चाचरेत्पूर्वं वमनाद्यैः क्रिया-
क्रमम् । वातजे कर्णके वापि लाङ्ग-
लीक्षीरमिश्रितम् ॥ ५५ ॥

कफजकर्णरोगमें प्रथम वमनादिके द्वारा चिकित्सा
करे । वातजकर्णरोगमें दूधमें कलिहारीका चूर्ण डाल
कर पान करे ॥ ५५ ॥

दलेनाश्वत्थवृक्षस्य वेष्टितं सुविपा-
चितम् । सतैललक्षणं कोष्णं वाधिर्यं
कर्णपूरणम् ॥ ५६ ॥

पीपलके पत्तोंको पुटपाककी विधिसे पकाकर फिर
उनका रस निचोडकर उसमें तेल और सैधानमक
डालकर कुछ गरम करके कानमें डालनेसे वाधिरता
नष्ट होती है ॥ ५६ ॥

एरण्डादितैल ।

एरण्डशिशुवहरणमूलिकापत्रजे रसे ।
चतुर्गुणे पचेत्तैलं क्षीरे चाष्टगुणान्वि-
ते ॥ ५७ ॥ यष्ट्याह्वक्षीरकाकोली-
कल्कयुक्तं निहन्ति तत् । नादवाधि-
र्यशूलानि नावनाभ्यङ्गपूरणैः ॥ ५८ ॥

अण्डकी जड, सहिजना, वरना और मूलीके
चौगुने स्वरसमें तथा अठगुणे दूधमें मुलेठी और
क्षीरकाकोली इनके कल्कके सहित डालकर तेलको
पकावे इस तेलको नस्य, अभ्यंग और कर्णपूरण
आदि कर्मके द्वारा प्रयोग करनेसे कर्णनाद, वाधिरता
और कर्णशूल नष्ट होते हैं ॥ ५७ ॥ ५८ ॥

सूकरवसा ।

कल्ककाथैश्च ष्ट्याह्वकाकालेद्वि य-
माषकैः । सूकरस्य वसा पक्वा कर्ण-
नादार्तिनाशिनी ॥ ५९ ॥

मुलेठी, काकोली, क्षीरकाकोली और उडद इनके
कल्क और काथमें सूअरकी चर्बीको पकाकर उसको
कानमें डालनेसे कर्णनादरोग दूर होता है ॥ ५९ ॥

स्वर्जिकेतैल ।

स्वर्जिकामूलकं शुष्कं हिंशुकृष्णाम-
हौषधम् । शतपुष्पा च तैस्तैलं पक्वं
शुक्ते चतुर्गुणे ॥ ६० ॥ प्रणादशूलवा-
धिर्यं स्त्रावं चाशु व्यपोहति ॥ ६१ ॥

सर्जी, सूखीमूली, हींग, पीपल, सोठ और सौफ
इनके कल्कके द्वारा चौगुनां शुक्तनामक काँजीमें
तेलको पकावे । इस तेलको कानमें डालनेसे कर्णनाद,
कर्णशूल, वाधिरता और कर्णस्त्राव शीघ्र दूर होता
है ॥ ६० ॥ ६१ ॥

मयूरनालाद्यतैल ।

मयूरनालगोमांसं लशुनं शुष्कमूल-
कम् । सशुक्तं साधितं तैलं कर्णना-
दार्तिनाशनम् ॥ ६२ ॥

मोरकी नाल (नली), गायका मांस, लहसुन
और सूखीमूली इनको शुक्तनामक काँजीमें मिला
कर तेलको पकावे । यह तेल—कर्णनाद और कानकी
पीडाको शांत करता है ॥ ६२ ॥

बिल्वतैल ।

गवां मूत्रेण बिल्वानि पिष्ट्वा तैलं
विपाचयेत् । सजलञ्च सदुग्धञ्च बा-
धिर्ये कर्णपूरणम् ॥ ६३ ॥

वेलको गोमूत्रमे पीसकर उसको जल और दूधके साथ तेलको पकावे । बधिर होने पर इस तेलको कानमें डालनेसे शिघ्र लाभ होता है ॥ ६३ ॥

अपामार्गतैल ।

अपामार्गक्षारजले तत्कृतकल्केन
साधितं तैलम् । अपहरति कर्णनादं
बाधिर्यं चापि पूरणतः ॥ ६४ ॥

चिरचितेके क्षार जलमे चिरचितेका कल्क डाल कर उसके साथ तेलको पकावे । यह तेल कानमें डालनेसे कर्णनाद और बधिरताको नष्ट करता है ॥ ६४ ॥

क्षारतैल ।

बालमूलकशूण्ठीनां क्षारो हिंसुसना-
गरम् । शतपुष्पावचाकुष्ठं दारुशि-
शुरसाञ्जनम् ॥ ६५ ॥ सौवर्चलं यव-
क्षारः स्वर्जिकोद्भिदसैन्धवम् । भूर्ज-
ग्रन्थिविडं मुस्तं मधुशुक्तं चतुर्गुणम्
॥ ६६ ॥ मातुलुङ्गरसश्चैव कदल्या-
रस एव च । तैलमेभिर्विपक्तव्यं कर्ण-
शूलहरं परम् ॥ ६७ ॥ बाधिर्ये कर्ण-
नादञ्च पूयस्त्रावश्च दारुणः । पूणा-
दस्य तैलस्य कृमयः कर्णमाश्रिताः
॥ ६८ ॥ क्षिप्रं विनाशमायान्ति
कृष्णात्रेयस्य शासनात् । क्षारतै-
लमिदं श्रेष्ठं सुखकर्णामयापहम् ॥ ६९ ॥

कच्चीमूलीको सुखाकार उसका वनाया हुआ क्षार और सोठका क्षार एव हिंसु, सोठ, सोया, वच, कूठ, देवदारु, सींहिजना, रसौत, काला नमक, जवाखार, सजी, विरियासंचर नमक, सैधानमक, भोजपत्र, पीपलामूल, वायविडग और नागरमोथा इनके कल्कको चौगुनी मधुशुक्तनामक कौजी, विजैरे नीचूके रस और केलेके रसमे डालकर इन

सबके द्वारा तेलको पकावे । यह तेल-कर्णशूल, बधिरता, कर्णनाद और पूयस्त्रावको दूर करता है । इस तेलको कानमे पूर्ण करनेसे कानके कृमि शीघ्र नष्ट होजाते है । यह क्षारतेल कृष्णात्रेयका कहाहुआ है । यह मुख तथा कानके समस्त रोगोंको दूर करनेके लिए परम श्रेष्ठ है ॥ ६५-६९ ॥

मधुशुक्तके लक्षण ।

जम्बीराणां फलरसः प्रस्थैकः कुड-
वोन्मितम् । माक्षिकं तत्र दातव्यं
पिप्पली च पलोन्मिता ॥ ७० ॥ घृत-
भाडे विनिःक्षिप्य धान्यराशौ नि-
धापयेत् । मासेन तज्जातरसं मधुशु-
क्तमुदाहृतम् ॥ ७१ ॥

जम्बीरीनीचुओका स्वरस १ प्रस्थ लेकर उसमें एक कुडव परिमाण शहद और चार तोले पीपलका चूर्ण डालकर उसको घीके चिकने वासनमे भरकर धानोंके ढेरमे गाड देवे । फिर एक महीनेके बाद उसको उखाड लेवे । उस समय उसमेसे जो रस निकलता है उसको मधुशुक्त कहते है ॥ ७० ॥ ७१ ॥

एष एव विधिः कार्श्यः प्रणादे नस्य-
पूर्वकः । गुडनागरतोयेन नस्यं स्या-
दुभयोरपि ॥ ७२ ॥

कर्णनाद रोगमे प्रथम नस्य देकर फिर यही सब विधि करनी चाहिये । गुड और सोठ इनको जलमे मिलाकर उपर्युक्त दोनों रोगोंमे नास देवे ॥ ७२ ॥

कर्णस्त्रावे प्रतिकर्णं तथैव कृमिकर्ण-
के । सामान्यं कर्म कुर्वीत योगान्वै-
शेषकानपि ॥ ७३ ॥

कर्णस्त्राव, प्रतिकर्ण और कृमिकर्ण इन रोगोंमे उपर्युक्त सामान्यचिकित्सा करनी चाहिये और विशेष क्रिया भी करनी चाहिए ॥ ७३ ॥

शिरोविरेचनं चैव धूपनं पूरणं तथा ।
प्रमार्जनं धावनञ्च वोक्ष्य वीक्ष्याव-
चारयेत् ॥ ७४ ॥

दोपोका बलावळ विचारकर शिरोविरेचन, धूप-प्रदान, कर्णपूरण, प्रमार्जन और धावन ये सब प्रयोग करने चाहिए ॥ ७४ ॥

राजवृक्षादितोयेन सुरसादिजलेन
च । कर्णप्रक्षालनं कार्यं चूर्णैरेतैस्तु
पूरणम् ॥ ७५ ॥

अमलतास आदिके जलके द्वारा अथवा तुलसी
आदि औषधियोंके जलके द्वारा कानको धोवे ।
और इन्हीं औषधियोंके चूर्णको कानमें डाले ॥ ७५ ॥

चूर्णं पञ्चकषायाणां कपित्थरससंयु-
तम् । कर्णस्त्रावे प्रशसन्ति पूरणं म-
धुना सह ॥ ७६ ॥

पंचकषायके चूर्णको कैथके रस और शहदके
साथ मिलाकर कानमें भरनेसे कर्णस्त्रावरोगमें शीघ्र
लाभ होता है ॥ ७६ ॥

तिन्दुकान्यभयालोध्रं समङ्गा चाम-
लक्यपि । पञ्चकषायशब्देन ब्राह्ममे-
तद्वि बोधितम् ॥ ७७ ॥

तेंदू, हरड़, लोध, मजीठ और आमले इनको पंच
कषाय कहते हैं अर्थात् पंचकषायशब्दसे इनको
ग्रहण करना चाहिये ॥ ७७ ॥

सर्जत्वक्चूर्णसंयुक्तं बीजप्ररसं क्षि-
पेत । कर्णस्त्रावे रुजो दाहाः प्रण-
श्यन्ति न संशयः ॥ ७८ ॥

शालकी छालका चूर्ण करके उसको विजैरेनीवू-
के रसमें मिलाकर कानमें डालनेसे कर्णस्त्राव, कान-
की पीडा और कानका दाह निम्सन्देह दूर होता है
॥ ७८ ॥

सर्जत्वक्चूर्णसंयुक्तः कार्पासीफल-
जो रसः । योजितो मधुना वापि
कर्णस्त्रावे प्रशस्यते ॥ ७९ ॥

शालकी छालके चूर्णको कपासके फलोके रसमें
मिलाकर शहद डालकर कानमें डालनेसे कर्णस्त्राव-
रोग दूर होता है ॥ ७९ ॥

पुटपाकक्रमस्वित्रो हस्तिविड्जात-
छत्रजः । रसः सतैलसिन्धूतयः कर्ण-
स्त्रावहरः परः ॥ ८० ॥

हाथीकी लोठसे उत्पन्न हुए छत्रशाक (सोंपकी
छत्री) को पुटपाककी विधिसे पका कर उसका
रस निचोड लेवे । उसको तेल और सैधानमक-
के चूर्णके साथ कानमें डालनेसे कर्णस्त्रावरोग दूर
होता है ॥ ८० ॥

जम्बवाद्यतैल ।

जम्बवाप्रपत्रं तरुणं समांशं कपित्थका-
र्पासफलञ्च सान्द्रम् । क्षुण्णं रसं तन्म-
धुना विमिश्रं स्त्रावापहन्तं प्रवदन्ति
तज्ज्ञाः ॥ एतैः शृतं निम्बकरञ्जतैलं
ससार्पणं स्त्रावहरं प्रदिष्टम् ॥ ८१ ॥

जामुन और आमके नवीन पत्ते, तथा कैथ और
कपास इनके गीले फल इन सबको समान भाग लेकर
एकत्र छेद करके रस निचोड लेवे । उस रसमें शहद
मिलाकर उसको कानमें डालनेसे कानका स्त्राव दूर
होता है । अथवा इनके रसको, नीम और करंजको
सरसोके तेलमें डालकर तेलको पकावे । यह तेल भी
ऊपर्युक्त कर्णस्त्रावादि रोगोंको दूर करता है ॥ ८१ ॥

विषगर्भतैल ।

अर्कस्य पत्रस्वरसं निर्गुण्डीस्वरसं
तथा । राजवृक्षादितोयेन सूर्याव-
र्त्तरसं तथा ॥ ८२ ॥ चित्रकोद्भवसं-
मिश्रं वज्रीक्षीरं तथैव च । तथा हु-
लहुलतोयेन प्रस्थैकेन क्रमेण तु ८३ ॥
तैलप्रस्थं पचेत्तस्मिन् हरितालपलद्र-
यम् । सैन्धवञ्च पलं योज्यं विषं पादां-
शकं तथा ॥ एतत्तैलं हरेत् क्षिप्रं कर्ण-
शूलञ्च दुस्तरम् ॥ ८४ ॥

आकके पत्तोका स्वरस, सिम्हालके पत्तोका
स्वरस, अमलतास आदिका स्वरस, सूर्यावर्त्तका
रस, चीतेका स्वरस, थूहरका दूध और हुलहुलका
रस ये प्रत्येक एक प्रस्थ एव तिलका तेल १ प्रस्थ,
हरिताल ८ तोले, सैधानमक ४ तोले और शुद्ध मी-
ठाविष २ तोले लेकर इनका कल्क बनाकर सबको
एकत्र करके तेलको पकावे । यह तेल दुस्तर कर्णशूल
को शीघ्र नष्ट कर देता है ॥ ८२-८४ ॥

मुसलीवाकुचीचूर्णं खादद्वाधिर्य-
शान्तये ॥ ८५ ॥

मुसली और वापचीके चूर्णको सेवन करनेसे
वाधिरता नष्ट होती है ॥ ८५ ॥

पञ्चवलकलतैल ।

विल्वोदुम्बरजम्बूदधित्यचृतानां व-
ल्कलैः सिद्धम् । श्रुतिरोधश्च निहन्ति
तैलं प्रपाकपूतिश्रुतं जयति ॥ ८६ ॥

वेलगिरी, गूडर, जामुन, कैय और आम इनकी
छालको पीसकर तेलमें डालकर पकावे । यह तेल--
वाधिरता, कर्णपाक और कर्णन्नावको दूर करता
है ॥ ८६ ॥

चतुष्पर्णतैल ।

आम्रजंबूभ्रवालानि मधुकस्य वटस्य
च । एभिः सुसाधितं तैलं पृतिकर्णो-
पशान्तये ॥ ८७ ॥

आम और जामुन, महुआ और वड इनके कोम-
लपत्तोंके द्वारा तेलको पकाकर कानमें डाल यह तेल
कर्णन्नाव और कानकी दुर्गन्धको नष्ट करनेके लिये
अत्युत्तम है ॥ ८७ ॥

चतुष्पल्लवतैल ।

वरुणाह्वकपित्थाम्र-जंबूपल्लवसाधि-
तम् । पृतिकर्णापहं तैलं जातीपत्र-
सोऽथवा ॥ ८८ ॥

वरनाकी छाल, कैय, आम और जामुन इनकेपत्तों
के द्वारा पकाया हुआ तेल अथवा चमेलीके पत्तोंके
रसके द्वारा पकाया हुआ तेल कानमें डालनेसे पूति-
कर्णको दूर करता है ॥ ८८ ॥

निर्गुण्डीस्वरसे तैलं सिन्धुधूमरजो
गुडः । पूरणात् पृतिकर्णस्य शमनो
मधुसंयुतः ॥ ८९ ॥

निर्गुण्डीके स्वरसमें तेल, सैधानमक, वरका
बुआँसा और गुड डालकर शहद मिलाकर कानमें
भरनेसे पूतिकर्णरोग शमन होता है ॥ ८९ ॥

जातीपत्रसे तैलं विपक्वं पृतिकर्ण-
जित् ॥ ९० ॥

चमेलीके पत्तोंके स्वरसमें तेलको पकाकर कानमें
डालनेसे पूतिकर्णरोग दूर होता है ॥ ९० ॥

पृष्टं रसाञ्जनं नाय्याः क्षीरेण मधु-
संयुतम् । प्रशस्यते चिरोत्थेषु सन्नावे
पृतिकर्णके ॥ ९१ ॥

रसातको रसोंके दूधमें घिमकर उममें शहद मिला
कर कानमें डालनेसे बहुत दिनोंका पुराना कर्णन्नाव
और पूतिकर्णरोग दूर होता है ॥ ९१ ॥

कुष्ठाद्यतैल ।

कुष्ठं हिंशुवचादारुशताह्वाविश्वसै-
न्धवैः । पृतिकर्णापहं तैलं वत्स-
मूत्रेणसाधितम् ॥ ९२ ॥

कुष्ठ, हींग, वच, देवदारु, सोया, साँठ और
सैधानमक इनके तेलको और तैलको बकरके
मूत्रमें डाल कर पकावे । यह तेल पूतिकर्णरोगको
दूर करता है ॥ ९२ ॥

शम्बूकतैल ।

शम्बूकस्य तु मांसेन कटुतैलं विपा-
चयेत् । तस्य पूरणमात्रेण कर्णनाडी
प्रशाम्यति ॥ ९३ ॥

शम्बूक (घोंघे) के मांसके द्वारा कड़वे तेलको
पकावे । केवल उस तेलको कानमें भरनेसे कर्णनाडी
शांत होजाती है ॥ ९३ ॥

गन्धकाद्यतैल ।

चूर्णेन गन्धकशिलारजनीभवेन सु-
पृथंशकेन कटुतैलपलाष्टकञ्च । धत्तूर-
पत्रसतुल्यमिदं विपक्वं नाडी जये-
च्चिरभवामपि कर्णजानाम् ॥ ९४ ॥
गन्धकादीनामत्रमिलित्वा पलं ग्राह्यम् ।

गन्धक, मैनडिल और हलदी इन सबके चार
तेल चूर्णके साथ और आठ पल धत्तूरके पत्तोंके
स्वरसके साथ आठपल कड़वे तेलको पकावे । यह
तेल--बहुत दिनोंकी पुरानी कर्णनाडीको भी दूर करता
है । गन्धकादिकको मिलाकर यहाँ एक पल लेना
चाहिये ॥ ९४ ॥

नासागत जो चौतास रोग कहे है, उनमें सबसे प्रथम पानसके लक्षण कहते हैं । जिसकी नासिका, श्वासके द्वारा सूखे हुए कण्ठसे बन्नी होजाती है, सूख जाती है, फिर गीली होजाती है और धुआँसा निकलता है तथा दाह होता है । और वह मनुष्य सुगन्ध व दुर्गन्धको तथा रसादेको नहीं जानसकता है, उसको पानसरोग कहते हैं । यह रोग वात और कफके द्वारा उत्पन्न होता है । इसमें वात कफज प्रतियोगके समान लक्षण होते हैं ॥ १ ॥

पूतिनस्यके लक्षण ।

दोषैर्विदग्धैर्गलतालुमूले संमूर्च्छितो यस्य समीरणस्तु । निरेति पूतिर्मुखनासिकाभ्यां तं पूतिनस्यं प्रवदन्ति रोगम् ॥ २ ॥

जिसके गले और तालुकी जड़में दूषित पित्त, कफ और रुधिर इन दोषोंके द्वारा वायु दुर्गन्धित होकर मुख और नाकमेंसे निकलता है, उसको पूतिनस्यरोग कहते हैं (यहाँ दोषोंके साथ मिले रहनेसे रुधिरको भी दोष कहा है । पूति अर्थात् दुर्गन्धित हो, नस्य नाककी वायु जिसमें वह पूतिनस्य है इस व्याख्याके अनुसार इस रोगका नाम पूतिनस्य रक्खा गया है) ॥ २ ॥

नासापाकके लक्षण ।

घ्राणाश्रितं पित्तमरुषि कुय्याद्यस्मिन् विकारे बलवांश्च पाकः । तं नासिकापाकमिति व्यवस्येद्विक्लेदकोथावथवापि यत्र ॥ ३ ॥

जिसमें नासिकामें रहनेवाला पित्त दूषित होकर छोटी २ फुंसियोंको उत्पन्न करता है, नाक भीतरसे अत्यन्त पकजाती है और क्लेदयुक्त तथा दुर्गन्धित रहती है उसको नासापाक रोग कहते हैं ॥ ३ ॥

पूररक्तके लक्षण ।

दोषैर्विदग्धैरथवापि जन्तोल्लगटदेशेऽभिहतस्य तैस्तैः । नासा खवेत् प्रथमसृग्विमिश्रं तं पूररक्तं प्रवदन्ति रोगम् ॥ ४ ॥

१ दोषसाहचर्याद्विक्रम्यायत्र दोषत्वमुक्तम् । पूतिर्नस्यो स्मिन् पूतिनस्य ।

मनुष्यके ललाटमें चोट लगनेसे अथवा स्वयं ही वातादि दोषोंके दूषित होनेसे उन्हीं उन्हीं दोषोंके अनुसार नाकमेंसे रक्त मिलीहुई राध बहती है, उसको पूररक्त रोग कहते हैं ॥ १ ॥

क्षवथुके लक्षण ।

घ्राणाश्रिते मर्मणि संप्रदुष्टो यस्यानिलो नासिकया निरेति । कफानुयातो बहुशोऽतिशब्दस्तं रोगमाहुः क्षवथुं विधिज्ञाः ॥ ५ ॥

जिसके नासिकाके आश्रित शृङ्गाटक मर्म दूषित हुआ वायु कफके साथ मिलकर नासिकाके द्वारा अत्यन्त जोरसे वारम्बार शब्दोंको निकालता है उसको क्षवथु रोग अर्थात् छीक कहते हैं ॥ ५ ॥

आगन्तुजक्षवथुके लक्षण ।

तीक्ष्णोपयोगादतिजिघ्रतो वा भवान् कट्टनर्कनिरीक्षणाद्वा । सूत्रादिभिर्वातरुणास्थिमर्माण्युद्धाटितेऽन्यः क्षवथुर्निरेति ॥ ६ ॥

राई आदि तीक्ष्ण पदार्थोंको या चरपरे पदार्थोंको भक्षण करनेसे अथवा तीक्ष्ण और चरपरे पदार्थोंको अधिक सूंघनेसे, सूर्यके सन्मुख देखनेसे अथवा डोरे आदिकी बत्ती बनाकर नाकमें चढानेसे, अथवा अन्यान्य पदार्थोंसे तरुणास्थिनामक मर्मस्थलको घिसनेसे जो छीके आती हैं, उनको वैद्यलोग आगन्तुज क्षवथु कहते हैं ॥ ६ ॥

भ्रंशथुके लक्षण ।

प्रभ्रश्यते नासिकयैव यस्य सान्द्रो विदग्धो लवणः कफस्तु । प्राक् सञ्चितो मूर्धनि सूर्यतप्ते तं भ्रंशथुं रोगमुदाहरन्ति ॥ ७ ॥

जिसके मस्तकमें पहलसे सञ्चित हुआ गाढा और खारीपन युक्त दूषित कफ सूर्यकी धूसे मस्तकके सन्तप्त होनेपर नाकसे गिरता है, उसको वैद्यलोग भ्रंशथु रोग कहते हैं ॥ ७ ॥

दीप्तके लक्षण ।

घ्राणे भृशं दाहसमन्विते तु विानेश्वरेद्धूम इवोर्द्धवायुः । नासा प्रदीतिः

व च यस्य जन्तोर्व्याधिं तु तं दीप्त-
मुदाहरन्ति ॥ ८ ॥

जिस मनुष्यकी अत्यन्त दाहयुक्त नासिकामेसे धुएँके समान ऊर्ध्ववायु (श्वास) निकले और नाकसे अग्नि जलनेके समान अत्यन्त गरम रहे उसको दीप्तरोग कहते हैं ॥ ८ ॥

प्रतिनाहके लक्षण ।

उच्छ्वासमार्गं तु कफः सवातो
रुन्ध्यात्प्रतीनाहमुदाहरेत्तम् ।

जब वायुके साथ कफ श्वासके मार्गको रोक देता है तब नाकसे अच्छे प्रकारसे श्वास नहीं आता, उस रोगको प्रतिनाह कहते हैं ।

नासाम्रावके लक्षण ।

घ्राणाद्घनः पतिसितस्ननुर्वा दोषः
स्रवेत् स्रावमुदाहरेत्तम् ॥ ९ ॥

नाकसे जो गाढ़ा, पीला अथवा सफेद रंगका घा पतला कफ गिरता है, उसको नासाम्राव कहते हैं ॥ ९ ॥

अन्यमतसे नासाम्रावके लक्षण ।

घ्राणात् सपिच्छिलः श्लेष्मा अबली-
द्रव उष्मणा । अजरः स्पन्दते घ्राणा-
न्नासाम्रावं तमादिशेत् ॥ १० ॥

जिसकी नासिकामेंसे अत्यन्त चिकना, गिलागिला, पतला, गरम और कच्चा कफ निकलता है उसको नासाम्राव कहते हैं ॥ १० ॥

नासापरिशोषके लक्षण ।

घ्राणाश्रिते स्रोतसि मारुतेन पित्तेन
गाढं परिशोषिते च । कृच्छ्राच्छ्रसे-
दूर्ध्वमधश्च जन्तुर्यस्मिन् स नासाप-
रिशोष उक्तः ॥ ११ ॥

जिसमे नासिकाके छिद्रमे रहनेवाले वायु और पित्तके द्वारा कफ अत्यन्त सूखजाता है तब मनुष्य बड़ी कठिनतासे ऊपर नीचेको श्वास लेता है उसको नासापरिशोष कहते हैं ॥ ११ ॥

दोषैस्त्रिभिर्वा पृथगेकशश्च ब्रूयात्तथा-
शांसि तथैव शांथान् । शालाकासि-

द्धान्तमवेक्ष्य चापि सर्वात्मकं सर्व-
गमर्बुदं स्यात् ॥ १२ ॥

नासार्ज और नासाशोथ ये दोनों रोग वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज इसप्रकारसे चार २ प्रकारके हैं । और नासार्बुद, वात, पित्त, कफ, रक्त, मास, मेद इन प्रत्येकके द्वारा उत्पन्न होनेसे और सन्निपातज होनेसे सात प्रकारका है ॥ १२ ॥

आमपीनसके लक्षण ।

शिरोशुरुत्वमरुचिर्नासाम्रावस्तनु-
स्वरः । क्षामः घृतिव्यथाभीक्षण-
मामपीनसलक्षणम् ॥ १३ ॥

शिरमें भारीपन, अरुचि, नासिकाके द्वारा पानी गिरना, स्वरहीन होना, शरीरमें कृशता और निरन्तर मुँहसे थूकका गिरना ये सब लक्षण अपक पीनसके हैं ॥ १३ ॥

पक्वपीनसके लक्षण ।

आमलिङ्गान्वितः श्लेष्मा घनः खेषु
निमज्जति । स्वरवर्णविशुद्धिश्च परि-
पक्वस्य लक्षणम् ॥ १४ ॥

जब अपक लक्षणोंसे युक्त कफ गाढ़ा होजाय एव जलमें डालनेसे डूबजाय, स्वर निर्मल और वर्ण शुद्ध होजाय तो उसको पक्व पीनस कहते हैं अर्थात् यह पक्वपीनसके लक्षण जानने चाहिए ॥ १४ ॥

पीनसरोगकी चिकित्सा ।

सर्वेषु पीनसेष्वादी निवातागारगो
भवेत् । शिरसोऽभ्यञ्जनैः स्वेदैर्नस्यैः
कटुम्लभोजनैः ॥ वमनैर्घृतपानैश्च
नासारोगानुपाचरेत् ॥ १५ ॥

सर्वप्रकारके पीनसरोगमे प्रथम रोगीको निर्वात अर्थात् पवनरहित स्थानमे रखे । शिरपर मालिश करे, स्वेद आर नस्य देवे, कटु और अम्ल पदार्थोंका भोजन करावे, तथा वमन और घृतपानके द्वारा नासा-रोगकी चिकित्सा करे ॥ १५ ॥

पंचमूल्यादियूष ।

पञ्चमूलीशृतं क्षीरं चित्रकश्च हरीत-
की । सर्पिर्गुडं षडङ्गश्च यूषः पीनस-
शान्तये ॥ १६ ॥

पीनसको शान्त करनेके लिए पञ्चमूलकी औषधियोंके द्वारा औटाया हुआ दूध, एव चीता, हरड, ची और गुड इनका चूष बनाकर देवे ॥ १६ ॥

सर्वेषु सर्वकालं पीनसरोगेषु जातमात्रेषु । मरिचं गुडेन दध्ना भुञ्जीत नरः सुखं लभते ॥ १७ ॥

सर्व प्रकारके पीनसरोगके उत्पन्न होतेही सदैव काली मिरचके चूर्णको गुड और दहीके साथ खाये तो वह मनुष्य सुखको प्राप्त होता है ॥ १७ ॥

कटुत्रिकादिचूर्ण और गुटिका ।

कटुत्रिकं चित्रकतिन्तिडीकं तालीशपत्रं चविकाम्लसंज्ञम् । विचूर्णितं जीरकचूर्णयुक्तमेलात्वचा तत्सुरभीकृतं च । मिश्रं पुराणेन गुडेन दद्यात्तपीनसानां परिपाचनार्थम् ॥ १८ ॥

त्रिकुटा, चीता, तिन्तिडी, तालीशपत्र, चट्य, अम्लवेत और जीरा इनको समान भाग लेकर चूर्ण करलेवे फिर इलायची और ढालचीनीके चूर्णसे सुवासित करके पुराने गुडमें मिलाकर उसकी गोलियाँ बनाकर सेवन करावे तो पीनसरोग दूर होता है ॥ १८ ॥

कटुफलादिचूर्ण ।

कटुफलं शृङ्गवेरं च पिप्पलीमरिचानि च । शटीपुष्करमूलश्च भाङ्गीमधुरसा वरा ॥ १९ ॥ अभयाकृष्णलवणं शृङ्गीकर्कटकस्य च । एतच्चूर्णवरं प्रोक्तं काथो वा मूत्रमृच्छितः ॥ २० ॥ पीनसे स्वरभेदे च तमके सहलीमके । सन्निपातेऽनिलकफे कासे श्वासे च शस्यते ॥ २१ ॥

कायफल, अदरख, पीपल, कालीमिरच, कचूर, पोहकरमूल, भारंगी, मूवा, त्रिफला, हरड, कालानमक और काकडाशिगी इनका चूर्ण अथवा इन्ही औषधियोंका गोमूत्रसे मूर्च्छित किया हुआ काथ पीनेसे, स्वरभेद, तमक, हलीमक, सन्निपात, वात, कफ, खाँसी और श्वास इन सब रोगोंमें हितकारी है ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥

पूर्वोद्दिष्टे पूतिनस्ये च कुर्यात् स्नेहस्वेदौ छर्दनं खंसनं वा । युक्तं भुक्तं तीक्ष्णमल्पं लघु स्यादुष्णं तोयं धूमपानञ्च कार्यम् ॥ २२ ॥

पूतिनस्यरोगमें पूर्वोक्त स्नेह, स्वेदन, वमन, विरेचन, तीक्ष्ण और हलके पदार्थोंका युक्ति पर्वक अल्प भोजन, उष्णजल और धूमपान ये सब प्रयोग करने चाहिये ॥ २२ ॥

स्निग्धस्य छर्दनैर्दोषान्निर्हरेद्वातपीनसे । पित्ते सर्पिः पिवेत्सिद्धं शृङ्गवेरेण वा पयः ॥ २३ ॥

वातजन्य पीनसरोगमें रोगीको स्निग्ध करके वमनके द्वारा दोषोंको दूर करे । पित्तजन्यपीनसरोगमें घृतपान करे अथवा दूधमें सोठको पकाकर उस दूधको पान करे ॥ २३ ॥

देयं कफघ्नमुष्णञ्च भोजनं रूक्षणं हितम् । विरेकं वमनं ह्यादौ लङ्घनं कफपीनसे ॥ २४ ॥

कफजन्यपीनसरोगमें प्रथम वमन विरेचन और लघन करावे फिर कफनाशक, गरम और रूखा भोजन देवे ॥ २४ ॥

स्नेहसेकश्च वा काय्यो लेपः शिरसि सर्षपैः । लशुनं मुद्गचूर्णैश्च व्योषक्षारयुतैर्हितः ॥ २५ ॥

शिरपर स्नेह, सेक, अथवा सरसोका लेप करे । अथवा लशुन, मूगका चूर्ण, त्रिकुटेका चूर्ण और जवाखार इन सबका प्रलेप करे ॥ २५ ॥

सकासे पीनसे पूतिघ्राणे ह्यावे सकंदुरे । धूमः शस्तोऽवपीतश्च कटुभिः कफपीनसे ॥ २६ ॥

कफपीनसरोगमें जो खाँसी, दुर्गन्धित स्राव और खुजली हो तो कटु औषधियोंके द्वारा धूमपान कराना चाहिए ॥ २६ ॥

कफघ्नमत्रं वात्ताकुं कुलित्याढकिमुद्गजाः । यूषाः प्रशस्ताः सव्योषास्तथा तोयोष्णसेवनम् ॥ २७ ॥

कफनाशक अन्न, वैंगुन, कुलथी, अरहर और मूँग इनका गूथ बनाकर त्रिकुटिका चूर्ण डाल करके सेवन करे और गरमजलको पान करे ॥ २७ ॥

कलिङ्गद्विगुमरिचे लाक्षालुरसकटु-
फलः । कुष्ठोप्राशिशुजन्तुघ्नैरवपीडः
प्रशस्यते ॥ २८ ॥

इन्द्रजौ, हींग, कालीमिरच, लाखका स्वरस, का-
यफल, कूठ, वच, सहिजना और वायविडंग इनके
द्वारा अवपीडन करे ॥ २८ ॥

तैरेव मूत्रसंयुक्तः कटुतैलं विपाच-
येत् । अपीनसे पूतिनस्ये शमनं
कीर्तितं परम् ॥ २९ ॥

अथवा उपर्युक्त औषधियोंके कल्क और गोमूत्रके
द्वारा कडवे तेलको पकावे । यह तेल-पीनस और
पूतिनस्य रोगको दूर करनेके लिए अत्यन्त श्रेष्ठ
है ॥ २९ ॥

व्योषाद्यचूर्ण ।

व्योषचित्रकतालीशतिन्तिडीकाम्ल-
वेतसम् । सचव्याजाजितुल्यांश-
मैलात्वक्पत्रपादिकाम् ॥ ३० ॥
व्योषादिकमिदं चूर्णं पुराणगुडसंयु-
तम् । पीनसश्वासकासघ्नं रुचिस्वर-
करं परम् ॥ ३१ ॥

त्रिकुटा, चीता, तालीगपत्र, तित्तिडीक, अमलवंत,
चव्य और जीरा ये सब औषधि समान भाग तथा
इलायची, दालचीनी और तेजपात ये प्रत्येक औषधि
चौथाई भाग लेवे । सबको एकत्र पीसकर पुराने
गुडमें मिलाकर सेवन करनेसे पीनस, श्वास, खोंसी
दूर होती है तथा रुचि उत्पन्न होती है और स्वर
सुन्दर होता है ॥ ३० ॥ ३१ ॥

व्याघ्रीतैल ।

व्याघ्रीदन्तीवचाशिशुसुरसाव्योष-
सिन्धुजैः । पाचितं नावनं तैलं पूति-
नासागदापहम् ॥ ३२ ॥

कटेरी, दंती, वच, सहिजना, तुलसी, त्रिकुटा
और सैधानमक इनके कल्कके द्वारा तेलको पकाकर

उस तेलकी नस्य देनेसे पूतिनस्य और नासिकाके
समस्त रोग दूर होते हैं ॥ ३२ ॥

त्रिकटुकाद्यतैल ।

त्रिकटुकविडङ्गसेन्धववृहतीफलशि-
शुसुरसदन्तीभिः । तैलं गोजलसिद्धं
नस्यं स्यात् पूतिनस्यस्य ॥ ३३ ॥

त्रिकुटा, वायविडंग, सैधानमक, बड़ी कटेरीके
फल, सहिजना, तुलसी और दंती इनके कल्कके द्वारा
गोमूत्रमें तेलको पकावे । इस तेलके द्वारा पूतिनस्य
रोगीको नस्य देनेसे यह रोग दूर होता है ॥ ३३ ॥

शिशुतैल ।

शिशुलिहिनिकुम्भानां बीजैः सव्यो-
षसेन्धवैः । त्रिलवपत्रसे तैलं नावनं
पूतिनस्यजित् ॥ ३४ ॥

सहिजना, कटेरी, दंतीके बीज, त्रिकुटा और सैवा-
नमक इनके कल्कके द्वारा तेलके पत्तोंके रसमें तेलको
पकावे । यह तेल नस्य देनेसे पूतिनस्यरोगको दूर
करता है ॥ ३४ ॥

राजरसायन ।

चित्रककषाय-पलशतममृताजाती-
रसश्च तुल्यांशम् । प्रक्षिप्य गुडशत-
श्च द्विपञ्चमूलीकषायेण ॥ ३५ ॥ त-
नुल्येन च हरीतक्याढकमेकं विपा-
च्य गुडपाकम् । अर्द्धप्रस्थं मधुनस्त-
स्मिन् दद्यात्ततो वैद्यः ॥ ३६ ॥ द्वे
द्वे पले निदद्यादेलात्वक्पत्रत्रिकटु-
कानाम् । यवक्षारादूर्द्धपलं प्रयोज-
येदश्विर्वर्द्धनं पुंसाम् ॥ ३७ ॥ एतद्र-
सायनोत्तममश्विभ्यां निर्मितं सु-
विख्यातम् । उपयुक्तवतां पुंसां
नृणकाष्ठान्यपि जीर्यति ॥ ३८ ॥
अजितमपि भेषजशतैः पीनसरोगं
व्यहाजयति । नृपातिरसायनमेतदा-
हारयन्त्रणारहितश्च ॥ ३९ ॥

चीतेका काथ १०० पल, गिलोयका स्वरस १०० पल, आमलोका स्वरस १०० पल, गुड १०० पल, दशमूलका काथ १ आठक और हरडका काथ १ आठक परिमाण लेवे । इन सबको एकत्र करके गुड-पाककी विधिसे पकावे । फिर वैद्य उसमें गहद आधा प्रस्थ, तथा इलायची, दालचीनी, तजपात, सोठ, मिरच, पीपल, ये प्रत्येक औषधि आठ २ तोले और जवाखार २ तोले इन सबको एकत्र पीस कर मिला देवे । इसको सेवन करनेसे मनुष्योंकी जठराग्नि अत्यन्त दीपन होती है । इस उत्तम रसायनको अश्विनीकुमारोंने निर्माण किया है । इसको सेवन करनेवाले मनुष्योंके तृण और काष्ठतक भी जीर्ण हो जाते हैं । जो पीनसरोग सैकड़ों औषधियोंसे भी आरोग्य नहीं होता, उसको यह रसायन तीन दिनमें दूर कर देती है । यह राजरसायन आहारकी यन्त्रणाको शीघ्र ही नष्ट कर देती है ॥ ३५-३९ ॥

नासापाके पित्तहृत्संविधानं कार्यं सर्वं बाह्यमाभ्यन्तरञ्च । हृत्वा रक्तं क्षीरवृक्षत्वचश्च योज्याः सेकाः स-घृताश्च प्रदेहाः ॥ ४० ॥

नासापाकरोगमें सम्पूर्ण पित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिये । बाहर भीतरसे रुधिर निकलवावे, तथा क्षीरवृक्षोंकी छालको पीस कर घृत मिला कर लेप करे और उपर्युक्त छालका काथ बनाकर परिषेक करे ॥ ४० ॥

सर्जार्जुनोदुम्बरवत्सकानां त्वचां कषायैः परिधावनीयः । कषायक-लकैरपि चैभिरेव सिद्धं घृतं त्राणवि-पकनुत्परम् ॥ ४१ ॥

राल, अर्जुनकी छाल, गूलर और कूडेकी छाल इनके काथके द्वारा नासापाकको धोवे । तथा उन ही औषधियोंके काथ और कल्कके द्वारा घृतको पकाकर नस्य देवे तो नासापाकरोग दूर होता है ॥ ४१ ॥

पूयास्त्रे रक्तपित्तघ्नाः कषाया नाव-नानि च । पाकदाहादिरोगेषु शीत-लेपादिकाः क्रियाः ॥ ४२ ॥

पूयास्त्रारोगमें रक्तपित्तनाशक काथ और नस्य आदि प्रयोग करे । पाक और दाहादि रोगोंमें शीतल लेपादि करे ॥ ४२ ॥

वान्ते सम्यक् चावपीडं विद्ध्यात्ती-त्रं धूमं शोधनं चात्र नस्यम् । क्षेप्यं नस्यं मूर्द्धवैरेचनीयैर्नाड्या चूर्णं क्षुद्रदे भ्रंशथौ वा ॥ ४३ ॥

क्ष्वथु अथवा भ्रंशथुरोगमें अच्छे प्रकारसे वमन करानेके पश्चात् अवपीडन, तीक्ष्ण धूम्रपान, शोधन (विरेचनादि), नस्य, शिरोविरेचन और नाडीचूर्ण इन सबका प्रयोग करे ॥ ४३ ॥

घृतगुग्गुलुमिश्रस्य सिक्थकस्य प्रय-त्नतः । धूमः क्ष्वथुरोगघ्नो भ्रंशथुञ्च-श्च निर्दिशेत् ॥ ४४ ॥

घी, गुग्गुलु और मोम इनका घूम्रपान करनेसे क्ष्वथु और भ्रंशथुरोग नष्ट होता है ॥ ४४ ॥

पिप्पलीतैल ।

सपिप्पलीकुष्ठमहौषधीनां विडङ्गमृ-द्रीककषायकल्कैः । तैलं विपक्वं क्ष-वथौ च नस्यं वसां पचेत्तैलमथो घृ-तञ्च ॥ ४५ ॥

पीपल, कूठ, सोठ, वायविडंग और दाख इनके काथ और कल्कके द्वारा तेलको पकावे । अथवा वसा या घृतको पकावे । इस तेल या घीका नस्य देनेसे क्ष्वथुरोग शीघ्र दूर होजाता है ॥ ४५ ॥

द्रव्याणि यानि क्ष्वथौ प्रदिष्टान्ये-तानि सर्वाणि सकटफलानि । चू-र्णानि कृत्वा प्रथमेत नस्ये शस्तञ्च दत्तं भ्रशथुं निहन्यात् ॥ ४६ ॥

जो जो औषधिये क्ष्वथुरोगमें कही है उन सबको और कायफलको मिला कर सबका एकत्र चूर्ण करके नस्य देनेसे भ्रंशथुरोग दूर होता है ॥ ४६ ॥

शुण्ठीतैल और घृत ।

शुण्ठिकुष्ठकणाबिल्वद्राक्षाकल्ककषा-यवत् । साधितं तैलमाज्यञ्च नस्यात् क्ष्वथुरुग्जयेत् ॥ ४७ ॥

सोठ, कूठ, पीपल, बेलगिरी और दाख इनके काथ और कल्कके द्वारा तेलको अथवा घृतको पकावे । इस तेल या घृतकी नस्य देनेसे क्ष्वथुरोग दूर होता है ॥ ४७ ॥

दीप्ते रोगे पित्तहृत् संविधान कार्यं
सर्वं माधुरं शीतलञ्च ॥ ४८ ॥

दीप्तरोगमें सम्पूर्ण पित्तनाशक कार्य, मधुर और शीतल औषधि व्यवहार करे ॥ ४८ ॥

नस्यं हितं निम्बरसाञ्जनाभ्यां दीप्तं
शिरः स्वेदनमल्पशस्तु । नस्ये कृते
क्षीरजलावसेकान् शंसन्ति भुञ्जीत
च मुद्गयूषैः ॥ ४९ ॥

नामके रस और रसौतकी दीप्तरोगमें नस्य देवे और गिरको अल्पस्वेद देवे । फिर नस्य देनेके पश्चात् दूध और जलको मिला कर उससे सीचे और मूँगका यूप भोजन करनेके लिये देवे ॥ ४९ ॥

नासानाहे स्नेहपानं प्रधानं स्निग्धा
धृमा मूर्द्धवास्तिश्च नित्यम् ।

नासाप्रतिनाहरोगमें स्नेहपान कराना प्रधान है । स्नेहके पश्चात् धूम एवं ऊर्ध्ववास्ति देवे ।

बलातैलं सर्वथैवापि युञ्ज्याद्वात-
व्याधावन्यदुक्तं च यद्यत् ॥ ५० ॥

खिरौटीके कलरसे पकाया हुआ तेल अथवा वात-व्याधिपर कहीं हुई अन्यान्य औषधि सर्वथा प्रयोग करे ॥ ५० ॥

नासाम्नावे घ्राणतश्चूर्णमुक्तं नाड्या-
देयं येऽवपीडाश्च पथ्याः । तीक्ष्णान्
धृमान् देवदावर्याग्रिकाभ्यां मांसं
त्वाजं पथ्यमत्रादिशन्ति ॥ ५१ ॥

नासाम्नावमें उत्तम औषधियोंके चूर्णको नलीसे नाकमें डाले तथा अवपीडन, पथ्य और देवदारु तथा चीतेकी अग्निके द्वारा तीक्ष्ण धूम्रपान करावे । इसमें बकरेका मांसका पथ्य देवे ॥ ५१ ॥

नासाशोषे क्षीरसर्पिः प्रधानं सिद्धं
तैलं चाणुकल्पेन नस्ये । सर्पिः पीतं
भोजनं जाङ्गलैश्च स्नेहस्वेदौ स्त्रौहि-
कश्चापि धूमः ॥ ५२ ॥

नासाशोषरोगपर दूध घृत प्रधानरूपसे देवे और औषधियोंके द्वारा तेलको सिद्ध करके नस्य देवे । घृत-पान करे, जांगलजीवोंके मांसका भोजन करे । एवं स्नेह, स्वेद और स्नेहयुक्त धूम्रपान करावे ॥ ५२ ॥

प्रतिश्यायका निदान ।

सन्धारणाजीर्णरजोऽतिभाष्यक्रोध-
तुर्वेषम्यशिरोऽभितार्पः । प्रजागरा-
त्तिरवपनांशुशित्तिरवश्ययामेधुनवाप्प-
शोकैः । संस्त्यानद्रोपे शिरामि
प्रवृद्धो वायुः प्रतिश्यायमुदीरयेत् ॥ ५३ ॥

मल मूत्रादिके वगैरों आरण करनेमें, अजीर्णसे, नाकमें धूल आदिके गिर जानेमें, अन्यन्त बालनेमें, क्रोध करनेमें, क्रतुकी विषमतासे, मूर्खकी धृपसे मस्तकके संतापित होनेमें, रात्रिमें अधिकतर जागनेसे दिनमें विशेष सोनेसे, नवीन अर्थान् कश्च जलको पीनेसे अथवा, विशेष कर शीतल जलको पीनेसे, शीतल पदार्थोंको अधिक सेवन करनेसे, तुपार या बर्फको सेवन करनेसे, अतिशय खांससर्ग करनेसे और हर्ष या शोकके आमुओंको रोकनेसे, मस्तकमें दांपोंके ऐंजित हो जानेसे वृद्धिको प्राप्त हुआ वायु प्रतिश्यायको उत्पन्न करता है ॥ ५३ ॥

चयादिकक्रमसे इसका दूसरा
निदान ।

चयङ्गतामूर्धानि मारुतादयः पृथक्
समस्ताश्च तथैव शोणितम् । प्रकुप्य-
माना विविधैः प्रकोपनेर्नृणां प्रति-
श्यायकरा भवन्ति हि ॥ ५४ ॥

अब वातादिक्रमसे प्रतिश्यायका निदान कहते हैं । मस्तकमें वातादि दोष पृथक् पृथक् अथवा सब एकत्र मिल कर एव रुधिरसहित संचित होकर जब अपने अपने कोप होनेके कारणोंसे कुपित होते हैं तब मनुष्योंके प्रतिश्यायको उत्पन्न करते हैं ॥ ५४ ॥

प्रतिश्यायका प्रवृत्ति ।

क्षवप्रवृत्तिः शिरसोऽतिपूर्णतास्त-
म्भोद्गमर्दः परिहृष्टरोमता । उपद्रवा-
श्चाप्यपरे पृथग्विधा नृणां प्रतिश्याय-
पुरःसराः स्मृताः ॥ ५५ ॥

छीकोका अधिकतर आना, शिरमें भारीपन शरीर का जकड़ना और दूटना, रोमांचोका खड़े होना

नाकमेंसे धुआँसा निकलना इत्यादि तथा इनके अतिरिक्त और भी उपद्रव होते हैं । ये प्रतिश्यायके पूर्व-रूप हैं ॥ ५५ ॥

वातिकप्रतिश्यायके लक्षण ।

आनद्धा पिहिता नासा तनुस्त्रावप्रसे-
कनी । गलताल्वोष्ठशोषश्च निस्तोदः
शङ्खयोस्तथा । भवेत् स्वरोपघातश्च
प्रतिश्यायेऽनिलात्मके ॥ ५६ ॥

नाकका भारी और बन्द होजाना, पतला स्त्राव होना, गला, तालु और ओठोंका सूख ज्ञाना, कनप-टीमें तोड़ने सरसीकी पीडा होना और स्वरभंग होना वातज प्रतिश्यायमें ये सब लक्षण होते हैं ॥ ५६ ॥

पैत्तिकप्रतिश्यायके लक्षण ।

उष्णः सपीतकः स्त्रावो घ्राणात् स्र-
वति पैत्तिके । कृशोऽतिपांडुः सन्त-
प्तो भवेदुष्णाभिपीडितः ॥ सधूमध-
न्नि सहसा वमतीव च नासया ॥ ५७ ॥

पित्तजनित प्रतिश्यायमें नाकमेंसे गरम और पीला स्त्राव होता है । तथा मनुष्य कृग, पांडुवर्ण-वाला, सन्तप्त शरीरवाला और गरमीसे पीडित होता है, उसकी नाकमेंसे अकस्मान् अधिके समान धुआँ-सा निकलता है ॥ ५७ ॥

श्लैष्मिकप्रतिश्यायके लक्षण ।

घ्राणात्कफः कफकृते श्वेतः पांडुः स्र-
वेद्बहुः । शुक्लावभासः शूनाक्षो भ-
वेद्गुरुशिरा नरः । कण्ठताल्वोष्ठशि-
रसां कण्ठभिरतिपीडितः ॥ ५८ ॥

जिसमें नाकक द्वारा सफेद और पीलेरगका बहुतसा कफका स्त्राव हो, उस मनुष्यका शरीर सफेद होजा-य, नेत्रोंमें सूजन हो, शिर भारी हो, कण्ठ, तालु, ओष्ठ और शिर इनमें खुजलीके द्वारा अधिक पीडा हो तो इसको कफजप्रतिश्याय कहते हैं ॥ ५८ ॥

त्रिदोषजप्रतिश्यायके लक्षण ।

भूत्वा भूत्वा प्रतिश्यायो योऽकस्मा-
द्विनिवर्त्तते । संपको वाप्यपको वा
स सर्वप्रभवः स्मृतः ॥ ५९ ॥

जिसमें पूर्वोक्त तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हो, और वह बारम्बार होकर पक्का अथवा कच्चा ही नष्ट होजाता हो तो उसको सन्निपातज प्रतिश्याय कहते हैं ॥ ५९ ॥

दुष्टप्रतिश्यायके लक्षण ।

प्रक्लिद्यते पुनर्नासा पुनश्च परिशु-
प्यति । पुनरानह्यते वापि पुनर्वि-
त्रियते तथा ॥ ६० ॥ निःश्वासे वाति
दौर्गन्ध्यं नरो गन्धात्त्र वेत्ति च । एवं
दुष्टप्रतिश्यायं जानीयात् कष्टसाध-
नम् ॥ ६१ ॥

जिसमें बारम्बार नाक बंद और सूखे, नाकके द्वारा अच्छे प्रकारसे श्वास न लिया जाय, बारम्बार नाक बन्द होजाय और बारम्बार खुलजाय, श्वास लेते समय दुर्गन्ध आवे और उस मनुष्यको सुगन्ध दुर्गन्धका ज्ञान न रहे तो इस प्रकारके लक्षणोंवाले प्रतिश्यायको दुष्टप्रतिश्याय कहते हैं । यह प्रतिश्याय कष्ट साध्य है (और असाध्य भी) होता है ॥ ६० ॥ ६१ ॥

रुधिरजन्यप्रतिश्यायके लक्षण ।

रक्तजे तु प्रतिश्याये रक्तस्त्रावः प्रव-
र्त्तते । ताम्राक्षस्तु भवेज्जन्तुरुरोधा-
तप्रपीडितः ॥ दुर्गन्धोच्छ्वासवदनो
गन्धानापि न वेत्ति सः ॥ ६२ ॥

रक्तसे उत्पन्न हुए प्रतिश्यायमें नाकके द्वारा रुधिर गिरता है, नेत्र लाल होजाते हैं, उर, क्षतके समान पीडा होती है, श्वास या मुखमें दुर्गन्ध आती है और उस मनुष्यको सुगन्ध, दुर्गन्धका ज्ञान नहीं रहता है ॥ ६२ ॥

असाध्यलक्षण ।

सर्व एव प्रतिश्याया नरस्याप्रतिका-
रिणः । दुष्टतां यान्ति कालेन तदा-
ऽसाध्या भवन्ति च ॥ ६३ ॥ मूर्च्छ-
न्ति चात्र क्रमयः श्वेताः स्निग्धा-
स्तथाणवः । कृमिजो यः शिरोरो-
गस्तुल्यन्तेनास्य लक्षणम् ॥ ६४ ॥

यदि प्रतिश्यायकी चिकित्सा न कीजावे तो वह कालान्तरमें दुष्ट होकर असाध्य हो जाते हैं । इसमें

कफसे सफेद, चिकने और महीन महीन कृमि पड-
जोते है। उसके लक्षण कृमिज शिरोरोगके समान
जानने चाहिए ॥ ६३ ॥ ६४ ॥

वृद्धिको प्राप्तहुआ प्रतिश्याय ।

बाधिर्यमान्ध्यमघ्नत्वं घोरांश्च नय-
नामयान् । शोथाग्रिसादकासांश्च
वृद्धाः कुर्वन्ति पीनसाः ॥ ६५ ॥

जब यह प्रतिश्याय अधिक वृद्धिको प्राप्त होजाता
है तब बाधिरता, अन्धापन, सुगन्ध दुर्गन्धका ज्ञान
न होना, नेत्रोके भयकररोग, सूजन, अग्रिका मन्दता
और खाँसी ये सब विकार उत्पन्न होते है ॥ ६५ ॥

नासिकागत अन्यान्यरोग ।

अर्बुदं सप्तधा शोथश्चत्वारोऽर्शश्चतु-
र्विधम् । चतुर्विधं रक्तपित्तमुक्तं घ्राणे-
ऽपि तद्विदुः ॥ ६६ ॥

अब नासिकाके अन्यान्य अर्बुदादिरोगोको संख्या
पूर्तिके लिये कहते हैं । वातार्बुद, पित्तार्बुद, कफार्बुद,
सन्निपातार्बुद, रक्तार्बुद, मांसार्बुद और मेदोर्बुद इस
प्रकार नाकमे सात प्रकारके अर्बुद होते हैं । वात-
शोथ, पित्तशोथ, कफशोथ और सन्निपातशोथ इस-
प्रकार नाकमे सूजन चार प्रकारकी होती है । वातार्श,
पित्तार्श, कफार्श और सन्निपातार्श इस प्रकार नासि-
कामे चार प्रकारका अर्श होता है । वातजरक्तपित्त,
पित्तजरक्तपित्त, कफजरक्तपित्त और सन्निपातजरक्त-
पित्त इसप्रकार नाकमे चार प्रकारका रक्तपित्त होता
है । अर्बुदोके लक्षण अर्बुदरोगाधिकारमें, सूजनके
लक्षण शोथाधिकारमे, अर्शके लक्षण अर्शरोगाधिका-
रमे और रक्तपित्तके लक्षण रक्तपित्ताधिकारमे कहे
है, उनसे जानलेना चाहिए ॥ ६६ ॥

**नासिकागत अर्श और अर्बुदके
लक्षण ।**

शिरोललाटतालुनां गौरवं दुःखनि-
द्रता । अर्शसामर्बुदानाश्च दोषको-
पाकृतिः समा ॥ ६७ ॥

शिर, ललाट और तालु इनमे भारीपन, दुःख,
निद्रासी मालूम होती है और इनमे दोषोका कोप
समान रूपसे होता है ॥ ६७ ॥

**अर्शांसि गोस्तनाकाराण्यर्बुदं कोल-
सन्निभम् ॥ ६८ ॥**

नासिकामे अर्श गायके स्तनके समान होता है
और अर्बुद बेरके समान होता है ॥ ६८ ॥

प्रतिश्यायकी चिकित्सा ।

प्रतिश्यायेषु सर्वेषु गृहं वातविवर्जि-
तम् । वस्त्रेण गुरुणोष्णेन शिरसो
वेष्टनं हितम् ॥ ६९ ॥

सर्व प्रकारके प्रतिश्यायोंमें रोगीको वातरहित स्था-
नमें रक्ये । एव भारी और गरम वस्त्रसे उसके
शिरको बाध दवे ॥ ६९ ॥

विडङ्गं सैन्धवं हिंगु गुग्गुलुः समनः-
शिलाः । प्रतिश्यायो वचायुक्तं चूर्-
णमाघ्राय नश्यति ॥ ७० ॥

वायविडग, सैधानमक, हींग, गुग्गुलु, सैनशिल
और वच इनका चूर्ण करके सूँवनेसे प्रतिश्याय रोग
नष्ट होता है ॥ ७० ॥

अथवा सघृताञ्जलून् कृत्वामलकसं-
पुटे । नवप्रतिश्यायवतां धूमो वैद्यः
प्रयोजयेत् ॥ ७१ ॥

सक्तुओंको घीमे मिलाकर आमलोंके सम्पुटमे रख
कर धूम्रपान करे । यह धूम नवीन प्रतिश्यायवालोको
अत्यन्त हितकारी है ॥ ७१ ॥

घृततेलेन संयुक्तं शक्तुधूमं पिबेन्नरः ।
प्रतिश्यायहरं प्रोक्तं कासहिक्कानि-
वारणम् ॥ ७२ ॥

घृत और तेलमे सक्तुओंको मिलाकर धूम्रपान करे
यह धूम्रपान प्रतिश्याय, खाँसी और हिचकीको दूर
करता है ॥ ७२ ॥

प्रतिश्याये पिबेद्धूमं सर्वगन्धसमायु-
तम् । चातुर्जातकचूर्णं वा घ्रेयं वा
कृष्णजीरकम् ॥ ७३ ॥

सम्पूर्ण सुगन्धित पदार्थोंका धूम्रपान करनेसे प्रतिश्यायरोग दूर होता है। अथवा दालचीनी, इलायची, तेजपात और नागकेसर इनको एकत्र पीसकर सूंघनेसे अथवा कालेजेरेके चूर्णको सूंघनेसे प्रतिश्यायरोग दूर होता है ॥ ७३ ॥

पुटपाकं जयापत्रं सिन्धुतैलसमन्वितम् । प्रतिश्यायेषु सर्वेषु शीलितं परमौषधम् ॥ ७४ ॥

विजया (भौंग) के पत्तोंको पुटपाककी विधिसे पकाकर उनका रस निकाल कर उसमें सैधानमक और तेल मिलाकरके सेवन करनेसे प्रतिश्यायरोग दूर होता है। सब प्रकारके प्रतिश्यायोमे यह औषध अत्यन्त हितकारी है ॥ ७४ ॥

भक्षयति भुक्तमात्रे सलवणं सुस्विन्नमाषमत्युष्णम् । शमयति सर्वसमुत्थं चिरजातं च प्रतिश्यायम् ॥ ७५ ॥

भोजन करनेके पश्चात् उडदोको उवालकर गरमागरम उनमें नमक डालकर भक्षण करनेसे सर्व दोषोंसे उत्पन्न हुआ और बहुत दिनोंका पुराना प्रतिश्यायरोग नष्ट होता है ॥ ७५ ॥

शटीतामलकीव्योषचूर्णं सर्पिर्गुडान्वितम् । हन्ति घोरं प्रतिश्यायं पार्श्वहृद्द्विस्तिशूलनुत् ॥ ७६ ॥

कचूर, सुई आमला और त्रिकुटा इनके चूर्णमें घी और गुड मिलाकर सेवन करनेसे घोर प्रतिश्यायरोग, पार्श्वशूल, हृदयशूल और वीस्तिशूल नष्ट होता है ७६

कुलित्थयवधान्याम्लयूषं तित्तिडिपत्रजम् । स्वेदोष्णञ्च हिमं भोष्यं पाचनाय प्रशस्यते ॥ ७७ ॥

कुलथी, जौ, काँजी और इमलीके पत्तोंका यूप, गरम तथा शीतल भोजन और पसीनेका निकलवाना ये सब प्रतिश्यायको पचानेके लिये सेवन करे ॥ ७७

गुडान्वितं चार्द्रमथादिशन्ति शुक्तोषितं तत्परिपाचनाय ॥ ७८ ॥

शतिश्यायको पकानेके लिये गुडके साथ अदरकको अथवा वासीशुक्तनामक काँजीको सेवन करे ७८

व्यूषणं गुडसंयुक्तं स्निग्धं दुग्धान्नभोजनम् । प्रतिश्यायहरं प्रोक्तं विशेषात्कफनाशनम् ॥ ७९ ॥

त्रिकुटेके चूर्णको गुडमें मिलाकर सेवन करे और स्निग्ध तथा दूधके साथ भात खावे तो प्रतिश्याय और विशेष करके कफ नष्ट होता है ॥ ७९ ॥

ततः पक्कं कफं ज्ञात्वा हरेच्छीर्षविरेचनैः । पिप्पल्यः शिशुबीजानि विडङ्गं मरिचानि च ॥ अवपीडः प्रशस्तोऽयं प्रतिश्यायनिवारणः ॥ ८० ॥

पश्चात् कफको पक समझकर उसको शिरोविरेचनकी औषधियोंके द्वारा दूर करे। तथा पीपल, सहिजनेके बीज, वायविडंग और कालीमिरच इनके द्वारा अवपीड करनेसे प्रतिश्यायरोग दूर होता है ८०

शिरसोऽभ्यञ्जनं स्वेदं नस्यं कटुम्लभोजनैः । वमनैर्वृतपानैश्च नान्यथा समुपाचरेत् ॥ ८१ ॥

शिरपर मालिस, स्वेद, नस्य, कटु और अम्लभोजन, वमन और घृतपान इन सबका प्रयोग करनेसे प्रतिश्याय रोग दूर होता है ॥ ८१ ॥

वातके तु प्रतिश्याये पिबेत्सर्पिर्यथाबलम् । पञ्चभिर्लवणैः सिद्धं प्रथमेन गणेन च ॥ ८२ ॥

वातजप्रतिश्यायमें पंचलवणोंके द्वारा अथवा पंचमूलकी औषधियोंके द्वारा घृतको सिद्ध करके अपने बलाबलके अनुसार पान करे ॥ ८२ ॥

नस्यादिषु विधिं कृत्स्नमवेक्षेतादितेरितम् ॥ ८३ ॥

इसमें सम्पूर्ण नस्यादि विधि रोगीके बलानुसार प्रयोग करे ॥ ८३ ॥

रक्तापित्तोत्थयोः पेयं सर्पिर्मधुरकैः शृतम् । परिषेकान् प्रदेहांश्च कुर्यादपि च शीतलान् ॥ ८४ ॥

रक्तपित्तसे उत्पन्न हुए प्रतिश्यायरोगमें मधुर औषधियोंके द्वारा घृतको पकाकर पान करे। तथा शीतल परिषेक और शीतल प्रलेप करने चाहिये ॥ ८४ ॥

युञ्जते कवलांश्चात्र विरेको मधुरैरपि ८५

इसमें मधुर औषधियोंका कवल धारण करे एवं मधुर औषधियोंके द्वारा विरेचन करावे ॥ ८५ ॥

हितं पित्तप्रतिश्याये पाचनार्थं शृतं पयः । शृङ्गवेरेण पयसा शृङ्गवेरमथापि वा ॥ ८६ ॥

पित्तजप्रतिश्यायको पचानेके लिये औषधियोंके द्वारा पकायाहुआ दूध पिलावे । अथवा अदरखको दूधमें डालकर पान करे या केवल अदरखको सेवन करे ॥ ८६ ॥

धवाद्यतैल ।

धवत्वक् त्रिफला श्यामा तिल्वकैर्मधुकेन च । श्रीपर्णीरजनीमिश्रैः क्षीरे दशगुणे पचेत् ॥ तैलं कालोपयुक्तं तु नस्यं स्यादनयोर्हितम् ॥ ८७ ॥

धायकी छाल, त्रिफला, अनन्तमूल, लोध, मुलैठी, कुम्भेर और हलदी इनके कल्कके द्वारा दशगुने दूधमें तैलको पकावे । इस तैलका नास देनेसे पित्तजप्रतिश्याय रोग दूर होता है ॥ ८७ ॥

कफजे सर्पिषा श्लिग्धं तिलमाषविपक्या । यवाग्वा वामयित्वा च श्लेष्मघ्नं क्रममाचरेत् ॥ ८८ ॥

कफजप्रतिश्यायरोगमें घृतसे स्निग्ध करके तिल और उहदोंकी यवागू बनाकर सेवन करावे फिर वमन कराकर समस्त कफनाशक चिकित्सा करे ॥ ८८ ॥

बलाह्वयाद्यतैल ।

उभे बले बृहत्तयौ च विडङ्गं सविकङ्कतम् । श्वेतामूलं महाभद्रां वर्षाभुं चापि संहरेत् ॥ तैलमेभिर्विपकं तु नस्यमस्योपकल्पयेत् ॥ ८९ ॥

खिरैटा, कंधी, कटेरी, बडी कटेरी, वायविडग, कटाई, सफेद कोयलकी जड़, कुम्भेर और पुनर्नवा इनके कल्कके द्वारा तैलको पकाकर उसकी नस्य देनेसे कफज प्रतिश्यायरोग दूर होता है ॥ ८९ ॥

दावींशुदिनिकुम्भेश्च किणिद्या सरलेन च । वर्तयोऽत्र कृता योज्या धूमपाने यथाविधि ॥ ९० ॥

दारुहलदी, हिंगोट, दंती, चिरचिटा और धूपसरल इन सबको एकत्र पीसकर उसकी यथाविधि वत्ती बनाकर उसका धूमपान करे ॥ ९० ॥

सर्पापि कटुसिद्धानि तीक्ष्णधृमाः कटूनि च । भेषजान्युपयुक्तानि हन्युः सर्वप्रकोपजम् ॥ ९१ ॥

कटुऔषधियोंके द्वारा सिद्ध कियाहुआ घृत, तीक्ष्ण धूम्रयान और सम्पूर्ण कटुऔषधि ये सर्वत्रोपजानित प्रतिश्यायरोगको दूर करते हैं ॥ ९१ ॥

रसाञ्जनाद्यतैल ।

रसाञ्जने सातिविषे मुस्तायां देवदारुणि । तैलं विपकं नस्यार्थं विदध्याञ्चात्र बुद्धिमान् ॥ ९२ ॥

बुद्धिमान् वैद्य इसमें रसांत, अतीस, नागरमोथा और देवदारु इनके कल्कके द्वारा तैलको पकाकर नास देवे तो प्रतिश्याय रोग नष्ट होता है ॥ ९२ ॥

मुस्तकादितैल ।

मुस्ता तेजोवती पाठा कटुफलं कटुकावचा । सर्षपा पिप्पलीमूलं पिप्पलीसैन्धवाग्निकौ ॥ ९३ ॥ तुत्थं करञ्जबीजश्च लवणं भद्रदारु च । एतैः कृतं कषायश्च कवले तच्च धारयेत् ॥ ९४ ॥ हितं शिरोविकारे च तैलमेभिर्विपाचयेत् ॥ ९५ ॥

नागरमोथा, तेजबल, पाठ, कायफल, कुटकी, वच, सदसो, पीपलामूल, पीपल, सैधानमक, चीता, तूतिया, करंजके बीज, नमक और देवदारु इनका काथ बनाकर उसका कवल धारण छरे । अथवा इन औषधियोंके काथ और कल्कके द्वारा तैलको पकाकर शिरोरोगमें प्रयोग करे ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥

क्षीरघृत ।

क्षीरमर्द्धजलं काथ्यं जाङ्गलैर्मृगप-
क्षिभिः । पुष्पैर्विमिश्रं जलजैर्वात-
घ्नैरौषधैरपि ॥ ९६ ॥ हिमे क्षीरा-
वशिष्टेऽस्मिन् घृतमुत्पाद्य यत्नतः ॥
सर्वगन्धासितानन्ता मधुकं चन्दनं
तथा ॥ ९७ ॥ अवाप्य विपचेद्भूयो
दशक्षीरञ्च तद्घृतम् । नस्यप्रयुक्तमु-
द्विक्तान्प्रतिश्यायान्व्यपोहति ॥ ९८ ॥

दूध एक भाग, दूधसे आधा भाग जल, जगल-
प्रदेशके पशु और पक्षियोंका मांस, कमल आदिके
फूल और वातनाशक औषधियोंका काथ, इन सबको
एकत्र मिला कर पकावे । जब केवल दूधमात्र बाकी
रह जाय तब उतार कर छान लेवे फिर उसमें उत्तम
वी, सम्पूर्ण सुगंधित औषधि, मिश्री, अनन्तमूल,
सुलैठी और चन्दन इनका कल्क डाल कर यथाविधि
घृतको पकावे । इस घृतको गतिल होजानेपर नम्या-
दिक कर्मोंमें प्रयोग करनेसे प्रतिश्याय रोग नष्ट
होता है ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥

गोमूत्रपिष्टाश्चोद्विष्टाः क्रियाः कृमिषु
योजयेत् । धावनानि कृमिघ्नानि
भेषजानि च बुद्धिमान् ॥ ९९ ॥

बुद्धिमान् वैद्य कृमिनासारोगमें कृमिनाशक औष-
धियोंको गोमूत्रमें पीस कर धोनेके लिये प्रयोग करे ९९
शेषान्तु विकाराणां स्वयं कुर्व्या-
च्चिकित्सितम् । घ्राणार्बुदेऽधिमासे च
क्रियां शेषेषु वीक्ष्य च ॥ १०० ॥

नासिकाके अन्यान्य शेषरोगोंमें यथादोषानुसार
वैद्य विचार कर चिकित्सा करे । नासार्बुद, अधिमास
और शेषरोगोंमें दोषोंको विचार कर उत्तम प्रकारसे
चिकित्सा करे ॥ १०० ॥

गृहधूमतैल ।

गृहधूमकणादारुक्षारनक्ताहसैन्धवैः ।
सिद्धं शिखरिवीजैश्च तैलं नासा-
र्शसां हितम् ॥ १०१ ॥

शरका धुआँसा, पीपल, देवदारु, जवाखार,
करंज और सैधानमक तथा चिरचित्तिके बीज इनके

कल्कके द्वारा तेलको पकावे । यह तेल-नासिकाकी
ववासीरको नष्ट करता है ॥ १०१ ॥

शिशुतैल ।

शिशुकान्तावचाव्योषद्राक्षामुरससै-
न्धवैः । नस्यदानाज्जयेत्सिद्धं तै-
लं नासागदे नृणाम् ॥ १०२ ॥

सहिजना, रेणुका, वच, त्रिकुटा, दाख और
सैधानमक इनके कल्कके द्वारा तेलको पकावे । इस
तेलके द्वारा नस्य देनेसे मनुष्योंकी नासिकाके सम-
स्तरोग दूर होते हैं ॥ १०२ ॥

करवीराद्यतैल ।

रक्तकरवीरपुष्पं जात्यशनमल्लिका-
याश्च । एतैः समन्तु तैलं नासाशौ-
नाशनं श्रेष्ठम् ॥ १०३ ॥

लाल कनेरके फूल, चमेली, विजयसार और मो-
तिया इनके कल्कके द्वारा तेलको पका कर सेवन
करनेसे नासिकागत अर्शरोग दूर होता है ॥ १०३ ॥

व्योषाद्यतैल ।

व्योषं धान्यककुसुमं गण्डीरकमव-
लगुजं बीजम् । एभिस्तैलं पक्वं नासा-
शौनाशनं सिद्धम् ॥ १०४ ॥

त्रिकुटा, धनियाँ, समष्टिलवङ्गके फूल और वापची-
के बीज इनके कल्कके द्वारा तेलको पकावे । इस
तेलको प्रयोग करनेसे नासिकागत अर्शरोग दूर होता
है ॥ १०४ ॥

इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां नासारोगाधि-
कार समाप्त ॥ ६६ ॥

अथ नेत्ररोगाधिकार ।



उष्णाभितप्तस्य जलप्रवेशाद्दूरेक्ष-
णात् स्वप्नविपर्ययाच्च । स्वेदाद्रजो-
धूमनिषेवणाच्च छर्देर्विधाताद्दमना-
तियोगात् ॥ १ ॥ द्रवात्रपानाति-

निषेवणाञ्च विण्मूत्रवातक्रमनिग्र-
हाञ्च । प्रसक्तसंरोदनशोककोपाच्छि-
रोभिघातादतिमद्यपानात् ॥२॥ तथा
ऋतूनाञ्च विपर्ययेण क्लेशाभिघा-
तादति मैथुनाञ्च । बाष्पप्रहात सूक्ष्म-
निरीक्षणाञ्च नेत्रे विकारान् जनय-
न्ति दोषाः ॥ ३ ॥

धूप आदि गरमीसे अत्यन्त व्याकुल होकर जलमे घुसनेसे, दूरके पदार्थोंको विशेष देखनेसे, दिनमे सोनेसे, रात्रिमे जागनेसे, नेत्रोमे पसीना, धूल अथवा धुंयेके जानेसे, आये हुए वमनके वेगको रोकनेसे या बहुत वमन करनेसे, पतले अन्नपानको अधिक सेवन करनेसे, मल, मूत्र और अधोवायुके वेगको रोकनेसे बहुत दिनोंतक रोनेसे, शोक और कोपके विशेष करनेसे, शिरमे चोटके लगनेसे, अत्यन्त मद्यपान करनेसे, ऋतु विपरीत आचरण करनेसे, काम और क्रोधादिजन्य पीडासे, अत्यन्त मैथुन करनेसे, आँसु-ओके वेगको रोकनेसे और बहुत बारीक पदार्थोंको देखनेसे वातादिदोष नेत्रोमे अनेक प्रकारके दारुण रोगोंको उत्पन्न करते हैं ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥

अभिष्यन्दके लक्षण ।

वातापित्तात्कफाद्रक्तादभिष्यन्दश्चतु-
र्विधः । प्रायेण जायते घोरः सर्व-
नेत्रामयाकरः ॥ ४ ॥

वात, पित्त, कफ, और रुधिरके प्रकोपसे अभिष्य-
न्दरोग चार प्रकारका होता है । इसमे घोर पीडा
होती है, यह प्रायः सम्पूर्ण नेत्ररोगोका कारण है ।
इसको देशमे "अँखै दुखना" कहते हैं ॥ ४ ॥

वाताभिष्यन्दके लक्षण ।

निस्तोदनस्तम्भनरोमहर्षसंघर्षपारु-
प्यशिशोभितापाः । विशुष्कभावः
शिशिराश्रुता च वाताभिपत्रे नयने
भवन्ति ॥ ५ ॥

वाताभिष्यन्दरोगमे सुई चुभोने सरीखी पीडा, या
तोहने भोकने सरीखी पीडा होती है, जड़ता, रोमांचो-

का होना, नेत्रोमे रेत पडने सरीखी खडक, कठिनता,
और शिरमें पीडा होती है नेत्रोमें कीचड नहीं आते
तथा नेत्रोमेसे शीतल आँसू गिरते हैं ॥ ५ ॥

पित्ताभिष्यन्दके लक्षण ।

दाहप्रपाकौ शिशिराभिनन्दा धूमा-
यनं बाष्पसमुच्छ्रयश्च । उष्णाश्रुता
पित्तकनेत्रता च पित्ताभिपत्रे नयने
भवन्ति ॥ ६ ॥

पित्तजअभिष्यन्दरोगमे दाह, पाक, शीतल पदा-
र्थोंको नेत्रोसे स्पर्श करनेकी इच्छा, नेत्रोमेसे धुआँसा
निकलना प्रतीत होना, गरम आँसुओका अधिक नि-
कलना तथा नेत्रोका पीला होना ये सब लक्षण होते
हैं ॥ ६ ॥

कफाभिष्यन्दके लक्षण ।

उष्णाभिनन्दा गुरुताक्षिशोथः कंडू-
पदेहावतिशीतता च । स्रावो बहुः
पिच्छल एव चापि कफाभिपत्रे नयने
भवन्ति ॥ ७ ॥

कफजअभिष्यन्दरोगमे नेत्रोसे गरम पदार्थ स्पर्श
करनेकी इच्छा, नेत्रोमें भारीपन, सूजन, खुजली,
कीचडोका अधिक आना, अत्यन्त शीतलता और
चिपक होती हैं । तथा उनमेसे बहुत पिच्छल स्राव
होता है ॥ ७ ॥

रक्ताभिष्यन्दके लक्षण ।

ताम्राश्रुता लोहितनेत्रता च राज्यः
समन्तादतिलोहिताश्च । पित्तस्य
लिङ्गानि च यानि तानि रक्ताभि-
पत्रे नयने भवन्ति ॥ ८ ॥

रक्तजअभिष्यन्दरोगमे नेत्रोमेंसे लाल आँसू गिरते
हैं, नेत्रोका रंग लाल हो जाता है । नेत्रोके चारो ओर
लाल रेखाये दीखती है तथा इसमें पित्तज अभि-
ष्यन्दके सम्पूर्ण लक्षण होते हैं ॥ ८ ॥

अभिष्यन्दसे अधिमन्थकी उत्पत्ति ।

वृद्धैरेतैरभिष्यन्दैर्नराणामक्रियावता-
म् । तावन्तस्त्वाधिमन्थाः स्युर्नयने
तीव्रवेदनाः ॥ ९ ॥ उत्पाट्यत इ-

वात्यर्थं नेत्रं निर्मथ्यते तथा । शिर-
सोऽर्द्धं तं विद्यादधिमन्थं स्वल-
क्षणैः ॥ १० ॥

अभिष्यन्दसे अधिमन्थरोग होता है, उसके लक्षण कहते हैं । जो मनुष्य अभिष्यन्द रोगकी चिकित्सा नहीं करते, उनके यह अभिष्यन्द रोग वृद्धि को प्राप्त होकर नेत्रोंमें तीव्र पीडावाले उसी प्रकार चार प्रकारके अधिमन्थरोगको उत्पन्न करते है । अधिमन्थरोगमें नेत्रोंमें उखाड़ने सरीखी पीडा तथा मथनेसरीखी पीडा और आधे गिरमे पीडा होती है। उसमें ये लक्षण विशेष होते है, शेष वाताभिष्यन्दादिकोंके जो लक्षण हैं उन सब लक्षणोंसे युक्त वाताधिमन्थ, पित्ताधिमन्थ आदिके लक्षण जानने चाहिये ॥ ९ ॥ १० ॥

दोषभेदसे कालमर्यादा ।

ह्नयाद् दृष्टिं श्लैष्मिकः सप्तरात्रात्तद्व-
न्मन्थो रक्तजः पञ्चरात्रात् । षड्रात्रा-
द्वा वातिको वै निहन्यान्मिथ्याचा-
रात्पैत्तिकः सद्य एव ॥ ११ ॥

मिथ्या आचरण अर्थात् अयोग्य उपचार आदि-
के करनेसे कफाभिष्यन्दजन्य अधिमन्थ सात दिनमें
दृष्टिको नष्ट करदेता है । रक्ताभिष्यन्दजन्य अधिमन्थ
पांच रात्रिमें दृष्टिको नष्ट करदेता है । वाताभिष्य-
न्दजन्य अधिमन्थ छ' रात्रिमें दृष्टिको नष्ट करदेता
है और पित्ताभिष्यन्दसे उत्पन्न हुआ अधिमन्थ
तत्काल ही दृष्टिको नष्ट करदेता है ॥ ११ ॥

आमयुक्तनेत्ररोगके लक्षण ।

उदीर्णवेदनं नेत्रं रागोद्रेकसमन्वित-
म् । घर्षनिस्तोदशूलाश्रयुक्तमामा-
न्वितं विदुः ॥ १२ ॥

अब नेत्ररोगके आमपकलक्षण कहते है । जिसमें
नेत्रोंमें चीरने सरीखी अत्यन्त भयंकर पीडा हो,
लाली अधिक हो, करकराहट हो, सुई चुभोने
सरीखी पीडा हो, जल हों और पानी बहता हो तो,
आमयुक्त नेत्ररोग जानना चाहिए ॥ १२ ॥

निरामके लक्षण ।

मन्दवेदनता कंडुः संरम्भाश्रुप्रशा-
न्तता । प्रसन्नवर्णता चाक्ष्णोः संपर्कं
दोषमादिशेत् ॥ १३ ॥

नेत्रोंमें मन्द मन्द पीडा, खुजली, सूजन और
आंसुओकी कमी हो, तथा नेत्रोंका वर्ण निर्मल हो तो
पक्वद्रोपके लक्षण जानने चाहिए ॥ १३ ॥

सशोथ और शोथरहित
नेत्रपाकके लक्षण ।

कंडूपदेहाश्रयुतः पक्कोदुस्वरसन्निभः ।
संरम्भा पच्यते यस्तु नेत्रपाकः सशो-
थजः ॥ १४ ॥ शोथहीनानि लि-
ङ्गानि नेत्रपाके त्वशोथजे ॥ १५ ॥

नेत्रोंमें खुजली हो, चिपक हो और आंसू बहते
हो तथा पक्के गूलरके समान लाल सूजनयुक्त पाक
हो तो उसको शोथयुक्त नेत्रपाक कहते है । और
जिसमें ये लक्षण न हों तो उसको शोथरहित नेत्रपाक
जानना चाहिए ॥ १४ ॥ १५ ॥

हताधिमन्थके लक्षण ।

उपेक्षणादक्षि यदाधिमन्थो वाता-
त्मकः सादयति प्रसह्य । रुजाभिरु-
प्राभिरसाध्य एष हताधिमन्थः खलु
नाम रोगः ॥ १६ ॥

वाताभिष्यन्दसे उत्पन्न हुआ अधिमन्थ योग्य
उपचारोंकी उपेक्षा करनेसे जब उग्रवेदनाके द्वारा
आंखोंको बलात्कारसे सुखाकर नष्ट करदेता है तब
यही अधिमन्थ हताधिमन्थ कहा जाता है यह हता-
धिमन्थ असाध्य है ॥ १६ ॥

वातपर्ययके लक्षण ।

वारंवारं च पर्येति भ्रुवौ नेत्रे च मा-
रुतः । रुजश्च विविधास्तीव्राः स
ज्ञेयो वातपर्ययः ॥ १७ ॥

जिसमें वायु किसी समय भौओमें और किसी
समय नेत्रोंमें वारम्बार फिरती है और अनेक प्रकार-
की तीव्र पीडाको उत्पन्न करती है उसको वातपर्यय
नेत्र रोग कहते है ॥ १७ ॥

शुष्काक्षिपाकरोगके लक्षण ।

यत्कूपितं दारुणरूक्षवर्त्म संदह्यते
चाविलदर्शनञ्च । सुदारुणं यत्प्रति-
बोधने च शुष्काक्षिपाकोपहृतं वद-
न्ति ॥ १८ ॥

नेत्रोंके पलक दारुण तथा कठिन और रूखे हो-
जायँ, आँख मिची रहँ, दाह हो, आँखसे साफ न दीख
सकँ और खोलते समय अत्यन्त निकृतसा दीखे तो
इस रोगको शुष्काक्षिपाकरोग कहते है ॥ १८ ॥

अन्यतोवातके लक्षण ।

यस्याऽवटूः कर्णशिशोहनुस्थो म-
न्यागतो वाप्यनिलोऽन्यतो वा । कु-
र्याद्भुजं वै भ्रुविलोचने च तमन्य-
तोवातसुदाहरन्ति ॥ १९ ॥

जिसके घाटीमें, कानमें, मस्तकमें, ठोड़ीमें,
मन्यानाडी और अन्य पीठके बाँस आदिमें स्थित
वायु भौँओमें और नेत्रोंमें घोर वेदनाको उत्पन्न
करती है तो इस रोगको अन्यतोवात कहते है । एक
स्थानमें स्थित वायु दूसरी वेदनाको उत्पन्न करती
है, इस कारण इसको अन्यतोवात कहते है । विवेह
भी कहता है कि जब नाडीके मध्यमें अथवा पीठके
बाँसमें स्थित वायु कनपटी, नेत्र और भौँओमें भेद-
न तथा तोड़ने सरीसरी पीडाको उत्पन्न करता है तब
इस रोगको नेत्रतत्त्व जाननेवाले वैद्य अन्यतोवात
कहते है ॥ १९ ॥

अम्लाध्युषितके लक्षण ।

श्यावं लोहितपर्यन्तं सर्वं चाक्षि
प्रपच्यते । सदाहशोथं सास्त्रावम-
म्लाध्युषितमम्लतः ॥ २० ॥

जो नेत्ररोग बीचमें काला और किनारोंपर लाल
होकर सर्वत्र नेत्रोंको पकावे तथा उसमें दाह हो,
मूजन हो और नेत्रोंमेंसे पानी बहे तो उसको अम्ला-
ध्युषित कहते हैं यह खटाई आदिके खानेसे होता
है ॥ २० ॥

शिरोत्पातके लक्षण ।

अवेदना वापि सवेदना वा यस्या-
शिराज्यो हि भवन्ति ताम्राः । तु-

हुर्विरज्यन्ति च याः स तादृग्व्या-
धिः शिरोत्पात इति प्रदिष्टः ॥ २१ ॥

पीडासीहत या पीडाहित जिसकी आँखोंकी नसें
ताँबेके समान लाल हो और वारम्बार अधिक लाल
रंगकी होती जायँ तो इसको श्रेष्ठवैद्य शिरोत्पातरोग
कहते है ॥ २१ ॥

शिरार्हर्षके लक्षण ।

मोहाच्छिरोत्पात उपेक्षितस्तु जाये-
त रोगः स शिरार्हर्षः । ताम्राश्रुम-
च्छं स्रवति प्रगाढं तथा न शक्नोत्य-
भिधीक्षितुं च ॥ २२ ॥

यदि मूर्खतासे शिरोत्पातकी उपेक्षा की जाय तो
वही शिरार्हर्षरोग हो जाता है । इसमें ताँबेके समान
लाल आर निर्मल आंसू गिरत हैं और रोगी देखने-
को असमर्थ हो जाता है ॥ २२ ॥

पांचरोगोंकी चिकित्सा ।

अक्षिकुक्षिभवा रोगाः प्रतिश्याय-
व्रणज्वराः । पश्चैते पञ्चरात्रेण रोगाः
शाम्यन्ति लङ्घनः ॥ २३ ॥

नेत्ररोग, कुक्षि (उदर) के रोग, प्रतिश्याय, व्रण
और ज्वर ये पांचो रोग लघन करनेसे पांच दिनमें
अपने आप शान्त होजाते है ॥ २३ ॥

लङ्घनालेपनस्वेदाशिराव्यधिविरेचनैः ।
उपाचरेदभिष्यन्दाजनाश्च्योतना-
दिभिः ॥ २४ ॥

लघन, लेप, स्वेद, शिरावेध, विरेचन, अञ्जन
और आश्च्योतन ये सब नेत्राभिष्यन्दरोगमें प्रयोग
करे ॥ २४ ॥

स्वेदः प्रलेपस्तिक्तान्नं सेको दिनच-
लुष्टयम् । लङ्घनं चाक्षिरोगाणामा-
मानां पाचनानि षट् ॥ २५ ॥

स्वेद, प्रलेप, तिक्त अन्नका भोजन, परिपेक,
चार दिन (अर्थात् चार दिनतक उपेक्षा करनी)
और लघन ये छः आमको पचानेवाले हैं ॥ २५ ॥

मारुतानशनास्वप्रकोधशोकसमुद्भवान् । न लङ्घयेदभिष्यंदान् वातव्याधिनराश्च ये ॥ २६ ॥

वातसे उत्पन्न हुए, उपवास करनेसे उत्पन्न हुए, रात्रिमें जागने, क्रोध करने और शोक करनेसे उत्पन्न हुए अभिष्यन्दरोगमें और जो वातव्याधिसे ग्रसित हो उन मनुष्योंको कदापि लघन कराने नहीं चाहिये २६॥

अभिष्यन्द्रेऽधिमन्थे च वातोत्थे वातपर्यये । शुष्कपाकेऽन्यतो वाते सामान्यो वक्ष्यते विधिः ॥ २७ ॥

वातोत्पन्न-अभिष्यंद और अधिमंथरोगमें, वात-विपर्यय, गुष्काक्षिपाक और अन्यतोवात इनमें सामान्य विधि कहते हैं ॥ २७ ॥

स्नेहस्वेदविधिः कृत्स्नो ग्राम्यानुपोदकामिषम् । नस्यं क्षीरघृताभ्याश्च शिरावेधश्च शस्यते ॥ २८ ॥

इतमे स्नेहविधि, स्वेदनविधि, ग्राम्य और अनूप-प्रदेशके जीवोंका मांस तथा जलचर जीवोंका मांस, दूध और घीकी नस्य तथा शिरावेध ये सब उपचार करे ॥ २८ ॥

अथवा वेदनार्तस्य न शिराव्यधन-क्रमः ॥ २९ ॥

जो वेदनासे अत्यन्त पीडित है उनके शिरावेध न करे ॥ २९ ॥

तत उपाचरेद्वैद्यः सामान्यविधिना नरम् । पुराणसर्पिषा चैव सम्यक् स्नेहविरेचनैः ॥ ३० ॥ तर्पणैः पुटपाकैश्च धूमैराश्च्योतनैस्तथा । नस्यैः स्नेहपरीषकैः शिरोवस्तिभिरेव च ३१ ॥

किंतु सामान्य विधिसे उपचार करे । पुराने घीके द्वारा अच्छे प्रकारसे स्नेहयुक्त विरेचन देवे । तथा तर्पण, पुटपाक, धूमपान, आश्च्योतन, नस्य स्नेह, सेक और शिरोवस्ति ये सब कर्म करे ॥ ३०॥३१॥

कुरण्टपुष्पयष्ट्याह्वसिताविश्वैः समस्तुभिः । शुण्ठीसैन्धवयष्ट्याह्वलो-घ्नमृष्टैर्वृत्तरपि ॥ ३२ ॥ श्रीवासद्वि-निशालोश्चैश्चूर्णितैरल्पसैन्धवैः । अव्यक्तेऽक्षिगते कार्यं प्रोतस्थगुण्डनं वहिः ॥ ३३ ॥

पियावाँसेके फूल, मुलैठी, मिश्री और सोंठ इनको दहीके जलमें पीसकर पोटली बनाकर अथवा सोंठ, सैंधानमक, मुलैठी और घीमें भुनाहुआ लोथ इनकी पोटली बनाकर अथवा श्रीवास, हलदी, दारुहलदी, लोथ और कुछ सैंधानमक इनका चूर्ण करके पोटली बनाकर इसको अव्यक्त नेत्ररोगपर फेरे ॥३२॥३३॥

धात्री फलनिर्यासो नवदक्कोपं निहन्ति पूरणतः । एरण्डपत्रसत्तकर-सोऽथवा सैन्धवसंयुक्तः ॥ ३४ ॥ नवदक्कोपशमनः क्षौद्रयुतः शिशुमूल-रससेकः । नश्यत्यवश्यमथवा का-ञ्जिकपुनर्नवासैन्धवैर्विहितैः ॥ ३५ ॥

आमलोंके रसको नेत्रोंमें भरनेसे नवीन नेत्ररोग दूर होता है । सात अण्डके पत्तोंके रसमें सैंधानमक डालकर नेत्रोंमें लगानेसे या सहिजनेकी जडके रसमें शहद मिलाकर नेत्रोंमें लगानेसे नवीन नेत्ररोग अवश्य दूर होता है। अथवा काँजी, पुनर्नवा और सैंधानमक इनको एकत्र मिलाकर नेत्रोंमें लगानेसे नवीन नेत्ररोग दूर होता है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

वातपित्तकफसन्निपातजां नेत्रयोर्बहु-विधामपि व्यथाम् । शीघ्रमेव वि-निहन्ति योजितः शिशुपल्लवरसः समाक्षिकः ॥ ३६ ॥

सहिजनेके पत्तोंके रसमें शहद डालकर नेत्रोंमें प्रयोग करनेसे वात, पित्त, कफ और सन्निपातजन्य अनेक प्रकारकी नेत्रोंकी पीडा शीघ्र शांत होती है ३६

गोमूत्रे छगलरसेऽम्लकाञ्जिके च स्त्री-स्तन्ये हविषि विषे च माक्षिके च ॥

यत्तुत्थं ज्वलितमनेकशो निषिक्तं
तत्कुर्व्याद्गरुडसमं नरस्य चक्षुः ॥३७॥

खपरिया अथवा तूतियेको वारंवार अग्निमें तपाकर
गोमूत्र, वकरीके दूध, खट्टी काँजी, खीके दूध, घी,
विष और शहदमें बुझाकर फिर उसका अञ्जन बना-
कर नेत्रोंमें आँजनेसे मनुष्यके नेत्र गरुडके समान
तीव्र हो जात है ॥ ३७ ॥

सूर्योपरागानलविद्युदादिविलोक-
नेनोपहतेक्षणस्य । संतर्पणं स्निग्धाहि-
मादि योज्यं तथाञ्जनं माक्षिकहेमघृ-
ष्टम् ॥ ३८ ॥

सूर्य, चमकीले पदार्थ, अग्नि और विजली आदि
अनेक प्रदीप्त पदार्थोंको देखनेसे जिनके नेत्र दूषित
होजाते है उनके लिये चिकने और शीतल पदार्थोंका
सन्तर्पण देवे तथा सोनामाखीको पीसकर नेत्रोंमें
आँजे ॥ ३८ ॥

करवीरतरुणकिसलयछिन्नोद्भवरसा-
तिसंपूर्णम् । नयनयुगं भवति दृढं
सहसैव तत्क्षणात् कुपितम् ॥ ३९ ॥

कनेरके कोमलपत्तोंके तोडनेसे जो रस निकले
उसको दोनों नेत्रोंमें भरनेसे तत्कालके दूषित हुए
नेत्र तत्काल दृढ और पीडारहित हो जाते हैं ॥३९॥

सैन्धवदारुहरिद्रागैरिकपथ्यारसाञ्ज-
नैः पिष्टैः । दत्तो बहिः प्रलेपो भव-
त्यशेषाक्षिरोगहरः ॥ ४० ॥

सैधानगक, दारुहलर्ही, गेरु, हरड और रसौत
इनको एकत्र पीसकर नेत्रोंके बाहर प्रलेप करनेसे
समस्त नेत्ररोग दूर होते हैं ॥ ४० ॥

बहिरवलितं लोचनमभिकुपितम-
पि प्रसीदति क्षिप्रम् । लोध्ररसाञ्ज-
नचन्दनमनःशिलाकुष्ठपथ्याभिः ॥४१॥

लोध, रसौत, चन्दन, मैनशिल, कूठ और हरड
इन सबको एकत्र बिसकर नेत्रोंके ऊपर लेप करनेसे
नेत्रोंकी पीडा तत्काल शांत होती है ॥ ४१ ॥

भूम्यामलकी पिष्टा सैन्धवगृहवारि
योजिता ताम्रे । जाता घनत्वमक्ष्णो-
र्जयति बहिल्लपतः पीडाम् ॥ ४२ ॥

भुईआमला और सैधानमक इनको काँजीके साथ
तांबेके पात्रमें खरल करे । जब वह गाढा हो जाय
तब उसको नेत्रोंके ऊपर लेप करनेसे नेत्रोंकी पीडा
तत्काल शांत होजाती है ॥ ४२ ॥

आर्कश्च मूलमापोथ्य सुहूर्त वारिणि
न्यसेत् । एतदाश्च्योतनं दृष्ट्यं नय-
नामयनाशनम् ॥ ४३ ॥

वारुणीनक्षत्रमें आँककी जडको उखाडकर उसका
रस निचोडकर आश्च्योतन करनेसे नेत्रोंके समस्त
रोग दूर होते हैं ॥ ४३ ॥

निम्बस्य चोदुम्बरंवलकलस्य एरण्ड-
यष्टीमधुचंदनस्य । पिण्डी विधेया
नयने प्रकोपिते कफेन पित्तेन समी-
रणेन ॥ ४४ ॥

नीमकी छाल, गूलरकी छाल, अंडकी जड,
सुलैठी और चन्दन इनको एकत्र पीसकर पिण्डी
बनाकर नेत्रोंपर बाँधनेसे कफ, पित्त और वाताभि-
ष्यन्दरोग दूर होता है ॥ ४४ ॥

यद्यक्षिशूलं मन्येत सरुजं व्यक्तल-
क्षणम् । वेदनानिग्रहार्थश्च कुर्यादा-
श्च्योतनं तदा ॥ ४५ ॥

जो आँखमें शूल, पीडा और व्यक्त लक्षण हो
तो वेदनादिको शांत करनेके लिये आश्च्योतन कर्म
करे ॥ ४५ ॥

आश्च्योतनमभिष्यन्दो युञ्जितावांगं
दिनत्रयम् । अञ्जनं पक्वदोषस्य नेत्र-
रोगेऽनिलात्मके ॥ ४६ ॥

नेत्ररोगमें प्रथम तीन दिनतक केवल आश्च्योतन
कर्म करे । वातजनित और पक्वदोषवाले नेत्ररोगमें
अञ्जन प्रयोग करे ॥ ४६ ॥

शोथश्च दाहरोगश्च क्लेदकंदू तथा-
रुणम् । अक्ष्णोरस्रप्रसेकश्च क्षिप्र-
माश्च्योतनं हरेत् ॥ ४७ ॥

आश्च्योतनकर्म-नेत्रोंकी सूजन, दाह, कृद, खुज-
ली, लाली और रुधिरका गिरना इन सबको शीघ्र
दूर करता है ॥ ४७ ॥

ग्रीष्मे वर्षाशरत्काले ह्यस्त्रपित्तम-
येषु च । सुहुर्मुहुः स्वाद् शीतं क्रमा-
दाश्च्योतनं तथा ॥ ४८ ॥

ग्रीष्म, वर्षा और शरदऋतुमें तथा रक्तपित्तजन्य
नेत्ररोगमें बारम्बार सधुर और शीतल औषधियोंके
द्वारा आश्च्योतनकर्म करे ॥ ४८ ॥

वातश्लेष्मणि हेमन्ते वसन्ते शिशि-
रेषु च । तीक्ष्णोष्णम्लशर्चैव का-
र्यमाश्च्योतनं बुधैः ॥ ४९ ॥

हेमन्त, वसन्त और शिशिर ऋतुमें तथा वात
और कफजन्यनेत्ररोगमें तीक्ष्ण, उष्ण और अम्ल
औषधियोंके द्वारा विद्वान् वैद्योंको आश्च्योतनकर्म
करना चाहिये ॥ ४९ ॥

पक्के च श्लेष्मिके व्याधौ पाणिः शु-
क्तिश्च वातिके । आश्च्योतने प्रमाणं
स्याद्द्वे शुक्ती चाशु पैत्तिके ॥ ५० ॥

पक्कदोषवाले कफजन्यनेत्ररोगमें एक तोला परि-
माण, वातजन्यनेत्ररोगमें एक शुक्तिपरिमाण और
पित्तजन्य नेत्ररोगमें दो शुक्तिपरिमाण आश्च्योतनकी
मात्रा देनी चाहिये ॥ ५० ॥

अष्टौ दश द्वादशविंदवस्तु संलेखन-
स्नेहनरोपणेषु आश्च्योतने च क्रमशो
विधेया मात्रास्तु तिस्रो नयनाम-
येषु ॥ ५१ ॥

लेखनविषयमें आश्च्योतनकी आठ बूँदें, स्नेहन
विषयमें दश बूँदें और रोपणविषयमें बारह बूँदें डाल-
नी चाहिये। नेत्ररोगोंमें इस तरह तीन प्रकारकी मात्रा
कल्पना करनी चाहिए ॥ ५१ ॥

आश्च्योतने मारुतजे काथो बिल्वा-
दिभिर्हितः । कोष्णः सैरण्डवृहती त-
र्कारीमधुशिशुभिः ॥ ५२ ॥ शूलघ्नं
वारुणोदीच्ययष्टीसैन्धवसाधितम् ।

हीवैरचक्रमञ्जिष्ठोदुम्बरत्वक्षु साधि-
तम् ॥ साम्भसा पयसा तेन शूले
चाश्च्योतनं परम् ॥ ५३ ॥

वातजन्यनेत्ररोगमें बिल्वादि औषधियोंके मंदो-
ष्णकाथसे आश्च्योतनकर्म करना हितकर है। अण्डकी
जड़, बड़ी कटेरी, अरणी और लाल सर्हिजना इनके
काथके द्वारा आश्च्योतनकर्म करनेसे नेत्रशूल नष्ट
होता है। तथा वरनाकी छाल, नागरमोथा, मुलैठी
और सैधानमक इनके काथको आश्च्योतनमें प्रयोग
करनेसे अथवा सुगंधवाला, तगर, मजीठ, गूलरकी छाल
और ईख इनका काथ बनाकर दूधमें मिलाकर उसको
नेत्रशूलमें आश्च्योतनके द्वारा प्रयोग करे ५२॥५३॥

सर्पिषाश्च्योतनं श्रेष्ठं सर्पिषा चोपना-
हनम् । परिषेकः सुखोष्णेन मूर्ध्नि तै-
लविधारणम् ॥ ५४ ॥

इसमें घीका आश्च्योतन और घीका उपनाहन
करना अत्यन्त हितकारी है। तथा मंदोष्ण, घृत,
तेलादिका परिषेक करना और शिरपर तेलको
धारण करना चाहिए ॥ ५४ ॥

पूर्वभक्तं हितं सर्पिः क्षीरश्चाप्यथ
भोजनम् । जात्याः पुष्पं घृतभृष्टं चक्षु-
प्यमुपनाहनम् ॥ ५५ ॥

प्रथम घीका भोजन करके फिर दूधके साथ भोजन
करना और चमेलीके फूलोंको घीमें भूनकर उपनाहन
करना नेत्रोंके लिए अत्यन्त हितकारी है ॥ ५५ ॥

तथा शाबरकं लोभ्रं घृतभृष्टं विडाल-
कः । काय्यो हरीतकी तद्द्रव्यं घृतयु-
क्ता रुजापहा ॥ ५६ ॥

पठानीलोधको घीमें भूनकर अथवा हरडको घीमें
भून करके पीसकर नेत्रके पलके ऊपर लेप करे तो
नेत्रकी पीडा दूर होती है ॥ ५६ ॥

सुखाम्बुपिष्टैः संयुक्तं शर्करालोधसै-
न्धवैः । दग्ध्वा ससैधवं लोभ्रं मधू-
च्छिष्टयुते घृते ॥ पिष्टमञ्जनलेपाभ्यां
सद्यो नेत्ररुजापहम् ॥ ५७ ॥

मिश्री, लोध और सैधानमक इनको एकत्र द्रव्य-
पणजलमें पीसकर नेत्रोपर लगानेसे अथवा सैधानमक
और लोध इनको भूनकर सोम और घीमे मिलाकर
नेत्रोमे आँजनेसे या लेप करनेसे नेत्रोंकी पीडा तत्काल
शांत होजाती है ॥ ५७ ॥

ततः संपक्कदोषस्य प्राप्तअनमाचरे-
त् ॥ ५८ ॥ हेमन्ते शिशिरे चैव मध्याह्ने-
ऽअनमिष्यते । पूर्वाह्ने चापराह्ने च
श्रीष्मे शरदि चेष्यते ॥ ५९ ॥ वर्षा-
स्वनभ्रे नात्युष्णे वसन्ते च सदैव हि ।
प्रातः सायं च तत्कुर्यान्न च कु-
र्यात्सदैव हि ॥ ६० ॥

दोप पक्कजानेके पश्चात् नेत्रोंमें योग्य अंजन ल-
गाना चाहिये । हेमन्त और शिशिरऋतुमे मध्याह्नके
समय अंजन आँजना चाहिये । ग्रीष्म और शरदऋतुमे
पूर्वाह्नके समय अथवा अपराह्नके समय अंजन आँ-
जना चाहिये । वर्षाऋतुमे वादलोके न होनेपर और
बहुत गरमीके न होनेपर अंजन आँजना चाहिये ।
वसन्तऋतुमें सदैव अंजन लगाना चाहिये । साधा-
रण कालमें प्रातःकाल और संध्याके समय अंजन
आँजना चाहिये, किंतु निरन्तर अंजन नहीं आँजना
चाहिये ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥

हरेणुप्रात्रं कुर्वीत वर्तिस्तीक्ष्णाअने
भिषक् । प्रमाणं मध्यमे सार्द्धं द्विगु-
णं तु मृदौ भवेत् ॥ ६१ ॥

वैद्य तीक्ष्ण अंजनकी मटरकी समान गोली बनावे।
मध्यम अर्थात् जो न तीक्ष्ण हो और न अत्यन्त को-
मल हो तो ऐसे अंजनकी डेढमटरकी समान गोली
बनावे और कोमल अंजनकी दो मटरकी बराबर
गोली बनानी चाहिये ॥ ६१ ॥

विडङ्गमात्रं त्वधमं मध्यं द्विश्रोतमं
त्रयम् । रसक्रियाणां वर्तीनां प्रमा-
णं परिकीर्तितम् ॥ ६२ ॥

रसरूपी अंजनकी अथवा वार्त्तरूप अंजनकी एक
वायविडंगके समान मात्रा मध्यम है। दो वायविडंग-
के समान मध्यम मात्रा है और तीन वायविडंगके
समान उत्तम मात्रा है ॥ ६२ ॥

वैरेचनिकचूर्णन्तु त्रिशलाका विधी-
यते । मृदौ तु त्रिशलाका स्याच्चत-
स्रः स्रोहिकेऽअने ॥ ६३ ॥

चूर्णरूप लेखन अंजनकी दो सलाई नेत्रोंमें लगानी
चाहिये । रोपणअंजनकी तीन सलाई और स्नेहनअं-
जनकी चार सलाई नेत्रोंमें लगानी चाहिये ॥ ६३ ॥

सुवर्णरूप्यताम्रायःकांस्याश्मास्थिम-
याः शुभाः । शलाकाश्चाअने कायर्था-
स्त्वष्टांगुलमिता बुधैः ॥ ६४ ॥

अंजन आँजनेके लिए विद्वानोंको सुवर्ण, चाँदी,
ताँबा, लोहा, काँसा, पत्थर और अस्थि इनकी आठ
अँगुल लम्बी, उत्तम, सचिकन और गोल सलाई
बनानी चाहिये ॥ ६४ ॥

बृहत्येरण्डमूलत्वक् शिशुमूलं ससै-
न्धवम् । अजाक्षीरेण पिष्टं स्याद्व-
र्त्तिर्वाताक्षिरोगनुत् ॥ ६५ ॥

बड़ी कटेरी, अण्डकी जड़की छाल, सहिजनेकी
जड़की छाल और सैधानमक इनको समान भाग
लेकर बकरीके दूधमें पीसकर बत्ती बनाकर नेत्रोमे
लगावे तो वातजन्य पीडा शांत होती है ॥ ६५ ॥

हरिद्रां मधुकं पथ्यां देवदारु च पेव-
येत् । आज्ञेन पथसा श्रेष्ठमभिष्यन्दे
तदअनम् ॥ ६६ ॥

हलदी, मुलैठी, हरड और देवदारु इनको बकरी
के दूधमें पीसकर अभिष्यन्दरोगमें नेत्रोंमें आँजना
हितकर है ॥ ६६ ॥

सैन्धवं दारु शुण्ठी च मातुलुङ्गरसो
घृतम् । स्तन्योदकार्द्धं कर्त्तव्यं शुष्क-
पाके तदअनम् ॥ ६७ ॥

सैधानमक, देवदारु, सोठ, विजौरैनीबूका रस,
घी, दूध और आधा जल इनको एकत्र मिला कर
शुष्काक्षिपाकरोगमें अंजनके समान आँजे ॥ ६७ ॥

शुष्काक्षिपाके हविषः पानमक्ष्णोश्च
तर्पणम् । घृतेन जीवनीयेन नस्यं तै-
लेन चाम्बुना ॥ ६८ ॥

शुष्काक्षिपाकरोगमें घृतपान करावे, जिवनीय गणकी औषधियोंके द्वारा घृतको सिद्ध करके उससे नेत्रोंका संतर्पण करे, तथा तैल और जलके द्वारा नस्य देवे ॥ ६८ ॥

यावन्मज्जति पक्ष्माग्रं भ्रुवोरन्तरनेत्र-
योः । तावच्च पूरयेन्नेत्रे तत उन्मीलये-
च्छनैः ॥ ६९ ॥ मारुते दश धार्याणि
पित्तेऽष्टौ वा शतानि च । निर्दिष्टानि
कफे षड्वा व्याधौ व्याधिवेशन वा ७० ॥

अत्र तर्पण करनेकी विधि कहते हैं । प्रथम नेत्रोंके पलक बंद करवाकर उनके ऊपर उड़नेके चूतको जलमें सानकर चारोंओर गोल मण्डलमा बनादेवे, फिर उसमें धी अथवा अन्य तर्पण करनेके पदार्थ भौपर्यंत भरे अथवा पलकके वालोतक भरो। फिर धीरे २ नेत्रोंको खुलवावे । इसप्रकार वातजन्य नेत्ररोगोंमें एक सहस्र मात्रापर्यंत, पित्तजन्य नेत्ररोगोंमें आठसौ मात्रा पर्यंत और कफजन्यनेत्ररोगोंमें छः सौ मात्रापर्यंत तर्पणको धारण करे ॥ ६९ ॥ ७० ॥

परिषेके हितं चात्र पयः कोष्णं ससै-
न्धवम् । रजनीदारुसिद्धं वा सैन्धवे-
न सप्तायुतम् ॥ ७१ ॥ सर्पिर्युक्तं स्त-
न्यवृष्टमञ्जनं च महौषधम् । वाता-
भिष्यन्दशमनं हितं मारुतपर्यये ७२ ॥

इसमें मन्दोष्णदूधमें सैधानमक डालकर नेत्रोंपर सेचन करे अथवा हलदी, देवदारु और सैधानमक इनको घीमें मिलाकर इनके द्वारा घृतको सिद्ध करके उसको दूधमें मिलाकर नेत्रोंको सींचे या सोंठको दूधमें घिसकर नेत्रोंमें अँजे तो वाताभिष्यन्दरोग शमन होता है और वातपर्ययरोगमें यह योग अत्यन्त हितकारी है ॥ ७१ ॥ ७२ ॥

वाताभिष्यन्दवच्चात्र वाते मारुतप-
र्यये । पूर्वं तत्र हितं सर्पिः क्षीरं
वाप्यथ भोजनम् ॥ ७३ ॥

इस वातपर्ययरोगमें वाताभिष्यन्दरोगके समान चिकित्सा करनी चाहिये । पहिले इसमें घृतपान अथवा दूधका भोजन करना हितकर है ॥ ७३ ॥

वृक्षादन्याद्यघृत ।

वृक्षादन्याह्वया चैव पञ्चमूली मह-
त्यपि । सक्षीरं कर्कटरसे सिद्धं वापि
पित्रेद् घृतम् ॥ ७४ ॥

वाँवा और वृहत्पंचमूल इनके कल्कके द्वारा तथा दूध और काकडाशिगीके रसमें घृतको पकावे । इस घृतको पान करनेसे उक्त वाताभिष्यन्द और वातपर्ययादिरोग दूर होते हैं ॥ ७४ ॥

अनेनैव विधानेन भिषक् तमपि सा-
धयेत् । अभिष्यन्दमधिमन्थमन्यान-
पि च पित्तजान् ॥ ७५ ॥ व्याधीलु-
पाचरेद्धीमांतीक्ष्णैः सुस्निग्धशी-
तलैः । आश्च्योतनैः परिषेकैः पुट-
पाकैः सन्तर्पणैः । स्नेहैर्विरेचनैर्लेपै रक्त-
स्य च त्रिमोक्षणैः ॥ ७६ ॥

इसीप्रकार बुद्धिमान् वैद्य अभिष्यन्द, अधिमन्थ और अन्यान्य पित्तजन्य नेत्ररोगोंको तीक्ष्ण, स्निग्ध और शीतल आश्च्योतन, परिषेक, पुटपाक, तर्पण, स्नेह, विरेचन, प्रलेप और रक्तमोक्षण इन सब क्रियाओंके द्वारा चिकित्सा करे ॥ ७५ ॥ ७६ ॥

प्रपुण्डरीकयष्ट्याह्वनिशामलकपद्म-
कैः । सितामधुसमायुक्तैः सकपि-
त्थैश्च रोगानुत् ॥ ७७ ॥

पुण्डेरिया, मुलैठी, हलदी, आमले, पद्माख और कैथ इनके काथमें मिश्री और शहद डाल कर पान करनेसे नेत्ररोग दूर होता है ॥ ७७ ॥

निम्बस्य पत्रैः परिलिप्य लोभ्रं स्वे-
दाग्निना चूर्णमथापि कल्कम् । आ-
श्च्योतनं मानुषदुग्धमिश्रं पित्तास्र-
वातापहमन्यमुक्तम् ॥ ७८ ॥

लोधको पीसकर नीमके पत्तोंपर लपेट करके अग्निसे सेके । पश्चात् उसका चूर्ण अथवा कल्क बनाकर लोके दूधमें मिलाकर नेत्रोंमें उसका रस डाले तो पित्त, रुधिर और वातजन्य अत्यन्त पीडायुक्त नेत्र रोग दूर होता है ॥ ७८ ॥

द्राक्षामधुकमञ्जिष्ठाजीवनयैः शृतं
पयः । प्रातराश्च्योतनं पथ्यं शोथशू-
लाक्षिरोगमुत् ॥ ७९ ॥

दाख, मुलैठी, मजीठ और जीवनीयगणकी औषधि
योंके द्वारा दूधको पकाकर प्रातःकाल उसके द्वारा
आश्च्योतनकर्म करनेसे नेत्रोंकी सूजन, शूल और
समस्त नेत्रोंकी पीडा दूर होती है ॥ ७९ ॥

चन्दनारिष्टपत्राणि यष्टीं दार्वी स-
सैन्धवम् । पिष्ट्वाभ्रसा भवेत्सेकः पि-
त्तक्षौद्रसमन्वितः ॥ ८० ॥

चन्दन, नीमके पत्ते, मुलैठी, दारुहलदी और
सैधानमक इनको जलमें पीसकर शहदमें मिलाकर
पित्तजन्य नेत्ररोगोंमें परिषेक करे ॥ ८० ॥

पैत्तिके चन्दमानन्ता-मञ्जिष्ठाभिर्वि-
डालकः । कार्य्यः सपन्नयष्ट्याह्वमां-
सीकालीयवैस्तथा ॥ ८१ ॥

पित्तजन्य अभिष्यन्दरोगमें लालचन्दन, अनंतमूल
और मजीठ इनका अथवा पद्माख, मुलैठी, बालछड
और कलम्बक इनका वा दारुहलदीको पीसकर
प्रलेप करे ॥ ८१ ॥

धात्रीलोध्रं घृते भृष्टं शिलायुक्तं सु-
वर्तितम् । प्रकृत्येद् गुटिकां कृत्वा
कुपिते लोचने दहिः ॥ ८२ ॥

आमले और लोधको घीमें भूनकर उसमें मैन्शि-
ल मिलाकर एकत्र पीसकरके गोली बनावे । उन
गोलियोंको नेत्रोंके बाहर लगानेसे नेत्रोंकी पीडा
दूर होती है ॥ ८२ ॥

उदुम्बरफलं लोध्रं घृष्ट्वा चात्यन्तधू-
पितम् । साज्यं समाक्षिकं दारु शूल-
रोगाश्चुजिद्धवेत् ॥ ८३ ॥

गूलरके फल और लोधको घी और शहदमें घिस-
कर देवदारु आदिसे सुवर्षिक करके नेत्रोंमें लगा-
नेसे नेत्रोंका शूल और अधिक आँसुओंका गिरना ये
रुब दूर होता है ॥ ८३ ॥

चन्दनं मधुकं लोध्रं जातिपत्राणि गै-
रिकम् । उषो दाहरोगघ्नस्तोदा-
भिष्यन्दनाशनः ॥ ८४ ॥

लालचन्दन, मुलैठी, लोध, चमेलीके पत्ते और
गेरू इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे नेत्रोंकी दाह,
तोड़ने सरीखी पीडा और नेत्राभिष्यन्दरोग दूर
होता है ॥ ८४ ॥

भृष्टा घृतेन नागरतिरीटधात्रीमनः-
शिलागुटिका । उपर्युपरि मार्जनेन
क्षपयति शूलं क्षणेनाक्षणोः ॥ ८५ ॥

सोठ, लोध, आमले और मैन्शिल इनको एकत्र
घीमें भूनकर गोली बनाकर उसको नेत्रोंके ऊपर
मलनेसे नेत्रोंका शूल तत्काल नष्ट होता है ॥ ८५ ॥

गुन्द्रां शालिं सैन्धवं शैलभेदं दर्भा-
भिक्षुं लोधकं वेतसञ्च । दार्वी द्रा-
क्षां चन्दनं चोत्पलं वा ह्यीणां स्तन्यं
शर्करां क्षौद्रकं च ॥ ८६ ॥ पद्मात्पत्रं
यष्टिकाहं हरिद्रा तालानन्ते चापि
संहृत्य सर्वान् । सिद्धं सर्पिस्तर्पणे नावनं
च शस्ते क्षीरं श्च्योतने चैव सेके ॥ ७८ ॥

गुन्द्रतृण, शालिधान, सैधानमक, पाषाणभेद,
डाभकी जड, ईखकी जड, लोध, वेत, दारुहलदी, दाख,
चन्दन और कमोदिनी इनको एकत्र पीसकर स्त्रीके
दूध, मिश्री और शहदमें मिलाकर नेत्रोंमें परिषेक
करनेसे अथवा कमलके पत्ते, मुलैठी, हलदी और
ताडकी जड इनके कल्कके द्वारा घृतको सिद्ध करके
उसको तर्पण, नस्य आदिमें प्रयोग करनेसे अथवा
उपर्युक्त औषधियोंके द्वारा दूधको पकाकर आश्चो-
तनकर्म और परिषेकमें प्रयोग करना श्रेष्ठ है ॥ ७६ ॥
॥ ८७ ॥

क्रियाः सर्वाः पित्तहार्य्यः प्रशस्ता-
स्यहादूर्ध्वं क्षीरसर्पिश्च नस्यम् ।
पालाशं स्याच्छोणितं चाञ्जनार्थं श-
ल्लक्या वा शर्कराक्षौद्रयुक्तम् ॥ ८८ ॥

पित्ताभिष्यन्दरोगमें सम्पूर्ण पित्तनाशक क्रिया
करनी चाहिये । तीन दिनके बाद दूध और घृतका
नस्य देवे । पलाश अथवा मालईके रसमें मिश्री और
शहद मिलाकर अंजनके लिये प्रयोग करे ॥ ८८ ॥

तिक्तस्य सर्पिषः पानं बहुशश्च वि-
रेचनम् । अम्लाध्युषितशान्त्यर्थं
कुय्याल्लेपान् सुशीतलान् ॥ ८९ ॥

अम्लाध्युषितरोगम् तिक्तघृतका पान, विशेष कर-
के विरेचन और शीतल औषधियोंके लेप प्रयोग
करे ॥ ८९ ॥

तैल्वकं त्रैफलं सर्पिर्जीर्णं वा केवलं
पिबेत् । शिराव्यधं विना कार्थ्यः पि-
त्ताभिष्यन्दहो विधिः ॥ ९० ॥

तैल्वकघृत अथवा त्रिफलाघृत वा केवल पुराने
बोको पीवे । इसमें गिरावेधको छोड़कर स र्पि
पित्ताभिष्यन्दनाशक विधि करे ॥ ९० ॥

कोष्णस्य सर्पिषः पानं विरेकासेक-
लेपनैः । स्वादुशीतैः प्रशमयेच्छुक्ति-
कं चाञ्जनस्ततः ॥ ९१ ॥

मन्दोष्णघृतका पान, मधुर और शीतल औषधि-
योंके द्वारा विरेचन, सेक और प्रलेप एव अंजन इनके
द्वारा शुक्तिकरोगको दूर करे ॥ ९१ ॥

प्रवालमुक्तावैडूर्यशङ्खस्फटिकचन्दन-
म् । सुवर्णरजतक्षौद्रमञ्जनं शुक्तिका-
पहम् ॥ ९२ ॥

मूंगा, मोती, वैडूर्यमणि, शंख, फटकरी, लाल
चन्दन, सोना, चांदी और जहद इन सबको एकत्र
पीसकर अंजन बनाकर नेत्रोंमें लगावे तो शुक्तिकरोग
दूर होता है ॥ ९२ ॥

धूमदर्शीं पिबेत्सर्पिः सर्वापित्तामयं
जयेत् ॥ ९३ ॥

जिस मनुष्यकी धुँके समान दृष्टि हो, वह घृत
पान करे इससे सर्वप्रकारके पित्तके रोग नष्ट होते
हैं ॥ ९३ ॥

अभिष्यन्दमधिमन्थं रक्तोत्थमथवा-
र्जुनम् । शिरोत्पातं शिराहर्षम-
न्यान् वातोद्भवान् गदान् ॥ स्निग्ध-
स्य कोष्णेनाज्येन शिरावेधैः शमं
नयेत् ॥ ९४ ॥

अभिष्यन्द, अधिमन्थ, रुधिरसे उत्पन्न हुए रोग,
अर्जुनरोग, शिरोत्पात, शिराहर्ष और अन्य समस्त
वातजन्य नेत्ररोगोंको प्रथम मन्दोष्णघृतसे स्निग्ध
करके फिर गिरावेधके द्वारा शमन करे ॥ ९४ ॥

तिरीटत्रिफलायष्टीशर्कराभद्रशुक्ल-
कैः । पिष्टैः शीतांबुना सेको रक्ता-
भिष्यन्दनाशनः ॥ ९५ ॥

लोध, त्रिफला, मुलैठी, मिश्री और नागरमोथा
इनको शीतल जलमें पीसकर सेचन करनेसे रक्ताभि-
ष्यन्दरोग दूर होता है ॥ ९५ ॥

लोधचूर्णं घृते भृष्टं रुजमाश्च्योतनं
हरेत् । शर्करात्रिफलाचूर्णमिदया-
श्च्योतनं परम् ॥ ९६ ॥

लोधके चूर्णको घीमें मूँकर उसकी घूँद नेत्रोंमें
डाले अथवा मिश्री और त्रिफलेके चूर्णको जलमें पी-
सकर उसकी घूँद नेत्रोंमें डाले तो नेत्रोंकी पीड़ा
जात होती है ॥ ९६ ॥

लाक्षामधुकमाञ्जिष्ठा लोघ्रं कालानु-
शारिवा । प्रपुण्डरीकसंयुक्तः सेको
रोगहरो हितः ॥ ९७ ॥

लाख, मुलैठी, मजीठ, लोघ, तगर और पुडे-
रिया इनको एकत्र पीसकर सेचन करनेसे रक्ताभि-
ष्यन्दरोग दूर होता है ॥ ९७ ॥

कशेरुमधुकानाश्च चूर्णमम्बरसंभृत-
म् । न्यस्तमप्स्वन्तरिक्ष्यासु हित-
माश्च्योतनं भवेत् ॥ ९८ ॥

कशेरु और मुलैठी इनके चूर्णको वस्त्रमें बांध
कर पोटली बनाकरके वर्षाके जलमें भिजोकर
वारंवार नेत्रोंमें टपकानेसे रक्ताभिष्यन्दरोग दूर
होता है ॥ ९८ ॥

नीलोत्पलोशीरकटकटेरीकालीय-
ष्टीमधुसुस्तलोघ्रैः । सपन्नकैधौतघृ-
तप्रदिग्धैस्तिष्ठः प्रसेकाः प्रहिता
प्रयुक्तान् ॥ ९९ ॥

नीलोत्पल, खस और दारुहलदी अथवा पीला-
चन्दन, मुलैठी, नागरमोथा और लोध अथवा केवल
पद्माखको घीमें मिलाकर नेत्रोंको सींचनेसे अभिष्य-
न्दादिरोग दूर होते है ॥ ९९ ॥

रुजायां चातितीव्रायां स्वेदाश्च वृ-
दवां हिताः । अक्ष्णोः समन्ततः का-
र्यं पातनञ्च जलौकसाम् ॥ १०० ॥

जो नेत्रोंमें अत्यन्त तीव्र पीडा हो तो मूढु स्वेद
देवे। आंर नेत्रोंके चारो ओर जौक लगवावे ॥ १०० ॥

घृतस्य महती मात्रा पीत्वा चार्तिं
नियच्छति । पित्ताभिष्यन्दशमनो
विधिश्चाप्युपपादितः ॥ १०१ ॥

घृतको अधिक मात्रामे पान करनेसे भी पीडा
शांत हो जाती है । इसमें पित्ताभिष्यन्दको शमन
करनेवाली विधि प्रयोग करनी चाहिये ॥ १०१ ॥

केशेरुमधुकानाञ्च चूर्णमम्बरसंभृत-
म् । छागीक्षीरे घृते सेकः पित्तरक्ता-
भिघातजित् ॥ १०२ ॥

केशेरु और मुलैठीका चूर्ण बनाकर वल्लमे बांध
करके बकरीके दूध अथवा घृतमे भिजोकर उसके
द्वारा नेत्रोंको सींचनेसे पित्ताभिष्यन्द, रक्ताभिष्यन्द
और अभिघातजन्य नेत्रोंकी पीडा शमन होती है
॥ १०२ ॥

श्रीपर्णीपाटलाधानी-धातकीतिलव-
कार्जुनात् । पुष्पाण्यथ वृहत्याश्च बिं-
बीलोध्रश्च तुल्यशः ॥ १०३ ॥ सम-
ञ्जिष्टानि मधुना पिष्टानीक्षुरसेन वा ।
रौधिरस्यन्दशान्त्यर्थमेतदञ्जनामि
ष्यते ॥ १०४ ॥

कुन्भेर, पाढल, आमले, धायके फूल, सफेद
लोध, अर्जुनके फूल, बडी कटेरीके फूल, कन्दूरी,
लोध और मजीठ इन सबको समान भाग लेकर
शहदमें पीसकर अथवा इसके रसमें पीसकर नेत्रोंमें
आँजनेसे रक्ताभिष्यन्दरोग दूर होता है ॥ १०३ ॥
॥ १०४ ॥

सृणालचन्दनोशीरपद्मकोत्पलयष्टि-
भिः । परिषेकः प्रकुर्वीत रक्तजेऽप्येत-
देव तु ॥ १०५ ॥

कमलकी नाल, चन्दन, खस, पद्माख, कमल
और मुलैठी इनको जलमें पीसकर उससे नेत्रोंको
सींचनेसे रक्ताभिष्यन्दरोग दूर होता है ॥ १०५ ॥

सुमनः क्षारकं शङ्खं त्रिफलां मधुकं
बलाम् । पित्तरक्तापहा वर्तिः पिष्ट्वा
दिव्येन वारिणा ॥ १०६ ॥

चमेलीके फूल, जवाखार, शंख, त्रिफला, मुलैठी
और खिरैटी इनको वर्षाके जलमें पीसकर बत्ती बना
करके नेत्रोंमें आँजनेसे पित्त और रुधिरकी पीडा
शांत होती है ॥ १०६ ॥

दार्वीं पटोलं मधुकं सनिम्बं पद्मको-
त्पलम् । प्रपौण्डरीकं चैतानि पचे-
त्तोये चतुर्गुणे ॥ १०७ ॥ विपाच्य
पादशेषं तु तत्पुनः कुडवं पचेत् ।
शान्तिं तस्मिन्मधुसिते दद्यात्पादां-
शिके ततः । रसक्रियेषा दाहाश्रु-
रोगरक्तरुजापहा ॥ १०८ ॥

दारुहलदी, पटोलपत्र, मुलैठी, नीम, पद्माख,
कमल और पुंडेरिया इन सबको समान भाग लेकर
चौगुने जलमें पकावे। जब पकते पकते जल चौथाई
भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेवे। फिर
इस काथको एक कुडव परिमाण लेकर पकावे।
जब पकते पकते गाढा होजावे तब नीचे उतार कर
स्वयं शीतल होनेपर उसमें दो तोला शहद और
दो तोला मिश्री मिला देवे। इसको रसक्रिया कहते
है। यह नेत्रोंकी दाह, अश्रुरोग और रक्तसम्बन्धीय
अभिष्यन्दादि रोगोंको दूर करती है ॥ १०७ ॥ १०८ ॥

सर्पिः क्षौद्राञ्जनं च स्याच्छिरोत्पा-
तस्य भेषजम् । तद्वत्सैन्धवकासीसं
स्तन्यपिष्टञ्च पूजितम् ॥ १०९ ॥

शिरोत्पादरोगमें घी और शहदका अञ्जन बना-
कर नेत्रोंमें लगाना शिरोत्पादरोगका औषध है। तथा
सैन्धानमक और कसीसको स्त्रीके दूधमें पीसकर
आँजना चाहिए ॥ १०९ ॥

शिराहर्षेऽञ्जनं कार्यं फाणितं मधुसं-
युतम् । मधुना ताक्ष्यशैलं वा का-
सीसं वा समाक्षिकम् ॥ वेतसाम्लं
स्तन्ययुक्तं फाणितं तु ससैन्धवम् ११० ॥

शिराहर्षरोगमें गवको शहदमें मिलाकर नेत्रोंमें
अंजन करे । अथवा रसौतको शहदमें मिलाकर या
कसीसको शहदमें मिलाकर अथवा अमलवेत, राव
और सैवानसकको खींके दूधमें पीसकर नेत्रोंमें आं-
जनेसे उक्तरोग दूर होता है ॥ ११० ॥

कफजे लङ्घनं स्वेदो नस्यं तित्तादि-
भोजनम् । तीक्ष्णैः प्रथमनं कुयर्था-
तीक्ष्णैरेवोपनाहनम् ॥ १११ ॥

कफजन्य अभिष्यन्दरोगमें लंघन, स्वेदन, नस्य,
तित्तरसवाले पदार्थोंका भोजन, तीक्ष्ण औषधियोंके
द्वारा प्रथमन और तीक्ष्ण औषधियोंके ही द्वारा उप-
नाह कर्म करे ॥ १११ ॥

उष्णैस्तथाश्च्योतनसंविधानैस्तथैव
तीक्ष्णैः पुटपाकयोगैः ॥ ११२ ॥

कफाभिष्यन्दरोगमें उष्ण और तीक्ष्ण औषधियोंके
द्वारा आश्च्योतन और पुटपाक कर्म करे ॥ ११२ ॥

अभिष्यन्देऽधिमन्थे च सञ्जाले श्ले-
ष्मसम्भवे । स्निग्धस्विन्नोत्तमाङ्गस्य
स्निग्धतीक्ष्णैर्विरेचयेत् ॥ ११३ ॥

कफजन्य अभिष्यन्दरोगमें और अधिमन्थरोगमें
प्रथम रोगीको स्निग्ध और स्वेदित करके शिरको स्नि-
ग्ध और तीक्ष्ण औषधियोंके द्वारा विरेचन देवे ११३ ॥

घ्रावैः प्रपीडैः प्रथमैर्धूमैश्च विविधै-
र्मुहुः । रूक्षैस्तीक्ष्णविरेकैश्च मलं स-
म्यग्विनिर्हेत् ॥ ११४ ॥

कफाभिष्यन्दरोगमें बारंबार अनेकप्रकारके स्त्राव,
अवपीडन, प्रथमन और धूम्रपान प्रयोग करे तथा
रूक्ष और तीक्ष्ण औषधियोंके द्वारा विरेचन देकर
उत्तम प्रकारसे मलको बाहर निकाल देवे ॥ ११४ ॥

रसाञ्जनेन वा लेपः पथ्याविश्वदलै-
रपि । वचाहरिद्राविश्वामिस्तथा
नागरगैरिकैः ॥ ११५ ॥

रसौतका लेप करनेसे अथवा हरड और अदरखके
पत्तोंका लेप करनेसे या वच, हलदी और सोठ इनका
लेप करनेसे अथवा सोठ और गेरुको पीसकर लेप
करनेसे कफाभिष्यन्दरोग जमन होता है ॥ ११५ ॥

शिलाहाश्वेतमारिचं लोध्रश्च परिपू-
रितम् । सितवस्त्रेण संबद्धं शस्तम-
क्षणोः प्रधर्षणात् ॥ ११६ ॥

भैनशिल, सहिजनके बीज और लोध इनको एकत्र
पीसकर सफेद वस्त्रमें बाँधकर पोटली बनाकरके
नेत्रोंपर विसनेसे कफाभिष्यन्दरोग दूर होता है ११६ ॥

निम्बपत्रैः कृतं चूर्णं लोध्रचूर्णसम-
न्वितम् । वस्त्रबद्धं जले क्षिप्तं पूरणं
नेत्ररोगनुत् ॥ ११७ ॥

नीमके पत्तोंके और लोधके समान भाग चूर्णको
वस्त्रमें बाँधकर पोटली बनाकरके जलमें भिजोकर
नेत्रोंमें लगानेसे नेत्रोंका कफाभिष्यन्दरोग दूर होता है ।

फाणिज्जकारुफोतकपित्थबिल्वधत्त-
पीलुसुरसार्जभृङ्गैः । स्वेदं विद-
ध्यादथवा प्रलेपं बहिष्टशुण्ठीसुरदा-
रुकुष्ठैः ॥ ११८ ॥

छोटे पत्तोंकी वनतुलसी, कोइला, कैथ, बेलगिरी,
धतूरा, पीलु, तुलसी, कालीतुलसी और भाँगरा इन
सब औषधियोंको एकत्र पीसकर लुगदी बनाकर
उसके द्वारा स्वेद देनेसे अथवा सुगन्धवाला, सोठ,
देवदारु और कूट इनको एकत्र पीसकर इनका लेप
करनेसे कफाभिष्यन्द रोग दूर होता है ॥ ११८ ॥

शुण्ठीनिम्बदलैः पिण्डः सुखोष्णः
स्वल्पसैन्धवः । धार्यश्चक्षुषि संक्षेपा-
च्छोथकंडूव्यथापहः ॥ ११९ ॥

सोठ और नीमके पत्तोंको एकत्र पीसकर उसमें
कुछ एक सैधानसक डालकर पिंडी बनाकर उसको
सुहाता २ नेत्रोंपर धारण करनेसे सूजन, खुजली
और नेत्रोंकी पीडा दूर होती है ॥ ११९ ॥

ससैन्धवं लोध्रमथाज्यभृष्टं सौवीर-
पिष्टं सितवस्त्रबद्धम् । आश्च्योतनं

तत्रयनस्य कुर्यात्सर्वाक्षिरोगप्रश-
मार्थमेतत् ॥ १२० ॥

सैधानमक और लोधको घीमे भूनकर काँजीमें पीसकर सफेद वस्त्रमें बाँधकर पोटली बनाकरके उसको नेत्रोमें निचोडनेसे सर्वप्रकारके नेत्ररोग दूर होते हैं ॥ १२० ॥

द्वौ द्वौ भागौ रजन्योश्च भागिकौ
धूमसर्षपौ । कफाभिष्यन्दजिद्रुष्टं
पिष्टमाश्च्योतमम्भसा ॥ १२१ ॥

हलदी २ भाग, दारुहलदी २ भाग, घरका धुआँसा १ भाग और सरसो १ भाग इन सबको एकत्र घीमे भूनकर जलमें पीसकरके उसके नेत्रोमें विटु डालनेसे कफाभिष्यन्दरोग दूर होता है ॥ १२१ ॥

लोथ्रं संपेष्य संपक्वं खदिराजाजिस-
र्षपैः । नागरारिष्टसिन्धुत्थैर्युक्तं दृष-
दि चूर्णितम् ॥ १२२ ॥ सिते वास-
सि तद्दृष्टं न्यसेत् स्वच्छाम्लकाञ्जिके ।
तदक्षणोः पूरणं कार्यं चक्षुसंवर्त्मरोग-
गजित् ॥ १२३ ॥

लोथ, खैर, जीरा, रससो, सोठ, नीमके पत्ते और सैधानमक इनको एकत्र भूनकर अच्छे प्रकारसे पीसकरके सफेद वस्त्रमें बाँधकर पोटली बना लेवे । उस पोटलीको खट्टीकाँजीमें डुबोकरके नेत्रोमें निचोडनेसे कफाभिष्यन्द, नेत्रोके समस्तरोग और वर्त्मरोग दूर होता है ॥ १२२ ॥ १२३ ॥

वत्कलं पारिजातस्य तैलसैन्धवका-
ञ्जिकम् । कफवाताक्षिशूलघ्नं तरुघ्नं
कुलिशं यथा ॥ १२४ ॥

पारिजात (फरहद) की छालको पीसकर तेल, सैधानमक और काँजीमें मिलाकर नेत्रोमें डालनेसे कफवातजन्य नेत्रशूल दूर होता है ॥ १२४ ॥

सौवीरं सैन्धवं तैलं मूर्वामूलं तथैव
च । कांस्यपात्रे विष्टं स्यादक्षणोः
शूलनिवारणम् ॥ १२५ ॥

सौवीरनामक काँजी, सैधानमक, तेल और मूर्वाकी जड़ इनको एकत्र काँसेके पात्रमें घिसकर नेत्रोमें आँजनेमें नेत्रशूल नष्ट होता है ॥ १२५ ॥

सैन्धवं त्रिफलाव्योषं शङ्खनाभिस-
सुद्रजः । फेनोत्रलेपकः सर्जो वर्तिः
श्लेष्माक्षिरोगनुत् ॥ १२६ ॥

सैधानमक, त्रिफला, त्रिकुटा, शंखनाभि, समुद्र-फेन सहिजगा और सर्जी इन सबको एकत्र पीसकर वस्ती बनाकर नेत्रोमें लगानेसे कफाभिष्यन्दरोग दूर होता है ॥ १२६ ॥

निम्बार्कपत्रसंपक्वं लोथ्रं भागचतुष्ट-
यम् । धूमः सर्पिः पयोभागैः कफसे-
कः सुखांबुना ॥ १२७ ॥

नीमके पत्ते और आकके पत्तोमें चौगुने लोधको पकाकर उसका धुआँ पिलानेसे और घी, दूध, जल इनका सुहाता सुहाता परिपेक करनेसे कफाभिष्यन्द रोग दूर होता है ॥ १२७ ॥

नागरं त्रिफलानिम्बवासानिम्बर-
सः कफे । साज्यं बिल्वच्छदं वृष्टं पात्रे
ताम्रमये दृढे ॥ शोथहृद्दहिना धूमं
छागक्षीरपरिप्लुतम् ॥ १२८ ॥

कफाभिष्यन्द नेत्ररोगमें सोठ, त्रिफला, नीम, अड्डसेका रस और नीमका रस इन सबको एकत्र मिश्रित करके नेत्रोमें सेचन करे । घीमें भुनेहुए बेलके पत्तोको मजबूत ताँबेके पात्रमें खरल करके बकरीके दूधकी भावना देकर सुखा लेवे । फिर अग्निके योगसे उनकी धूनी देवे तो इससे नेत्रोकी सूजन दूर होती है ॥ १२८ ॥

बिल्वपत्ररसः पूतः साज्यः सिन्धु-
भवान्वितः । शुल्बे वराटिकां वृष्ट्वा धू-
पितो गोमयाग्निना ॥ १२९ ॥ पयसालो-
डितश्चाक्षणोः पूरणाच्छोथशूलजित् ।
अभिष्यन्देऽधिमन्थे च रक्तस्त्रावे च
शस्यते ॥ १३० ॥

बेलके पत्तोके रसमें घी और सैधानमक डालकर उसको एक उत्तम ताँबेके पात्रमें कौडियोसे घिसे, फिर आरनेउपलोकी अग्निके द्वारा धूनी देवे । पश्चात् उस को दूधमें मिलाकर नेत्रोमें भरनेसे नेत्रशोथ, शूल, अभिष्यन्द, अधिमन्थ और रक्तस्त्राव दूर होता है ॥ १२९ ॥ १३० ॥

सलवणकटुतैलं काञ्जिकं कांस्थ-
पात्रे वनितमुपलवृष्टं धूपितं गोमया-
श्रीं । सपवनकफकोपं छागदुग्धाव-
सिक्तं जयति नयनशूलं छावशोथं
सरागम् ॥ १३१ ॥

सैधानमक, कडवातेल और काँजी इनको काँसेके पात्रमें एकत्र करके पत्थरसे खरल करे, फिर आरने-उपलोंकी अग्निमें धूनी देकर चकरीका दूध मिलाकर नेत्रोंमें लगावे तो वातकफजन्य अभिष्यन्द, नेत्रशूल, नेत्रस्त्राव, सूजन और नेत्रोंकी लाली दूर होती है १३१

त्रिदोषज अभिष्यन्दकी चिकित्सा ।

कोष्णमाश्च्योतनं मिश्रैर्भेषजैः सा-
न्निपातिके ।

सन्निपातजन्य अभिष्यन्दरोगमें अनेकप्रकारकी मिश्रित औषधियोंका रस निकालकर उसको कुल एक गरम करके नेत्रोंमें डाले ॥

यष्टीं गुडूचीं त्रिफलां सदावीमक्ष्या-
मये सर्वगते पिवेद्वा । आश्च्योतनं
सर्जरसेन दाव्याः शस्तं सदा क्षौ-
द्रयुतं नराणाम् ॥ १३२ ॥

मुलैठी, गिलोय, हरद, वहेडा, आमला और दारुहलदी इनका काथ बनाकर त्रिदोषजअभिष्यन्दमें पान करे । अथवा रास और दारुहलदीको जलमें पीसकर शहद मिलाकर नेत्रोंमें आश्च्योतन करे १३२

गुडूचीत्रिफलाकाथो मधुना सह यो-
जयेत् । पीतः सर्वाक्षिरोगघ्नः कृष्णा-
चूर्णावचूर्णितः ॥ १३३ ॥

गिलोय और त्रिफला इनका काथ बनाकर उसमें शहद और पीपलका चूर्ण डालकर पान करनेसे सर्व-प्रकारके नेत्राभिष्यन्दरोग दूर होते हैं ॥ १३३ ॥

मर्षण्डरीकयष्ट्याहदावीलोध्रैः सच-
न्दनैः । परण्डाम्बुयुतैः सेकः सर्व-
नेत्ररुजापहः ॥ १३४ ॥

पुंडेरिया, मुलैठी, दारुहलदी, लोध, चन्दन और अण्डकी जड़ इनको जलमें पीसकर अथवा इनका काथ

बनाकर उससे नेत्रोंको सींचनेसे सर्वप्रकारके नेत्ररोग दूर होते हैं ॥ १३४ ॥

श्वे लोभ्रं वृते भृष्टं चूर्णितं लाप्यलु-
त्थकम् । उष्णांडुना विभृदितं सेकः
शूलहरः परः ॥ १३५ ॥

सफेद लोधको घीमें भून कर उसमें सोनासाखी और तृतीयका चूर्ण मिलाकरके उसको गरम जलमें घोलकर नेत्रोंको सींचनेसे सर्वप्रकारकी नेत्रबीडा दूर होती है ॥ १३५ ॥

पिष्टैर्निम्बस्य पत्रैरतिविभलतरैर्जा-
तिसिन्धूत्थमिश्रा ह्यन्तर्गर्भं दधाना
पटतरगुटिका पिष्टरोध्रेण भृष्टा ॥
तूलैः सौवीरकाद्रैरतिशयमृदुभिर्वे-
ष्टिता सा समन्ताच्चक्षुः कोपोपशा-
न्तिं चिरमुपरि दृशो भ्राभ्यमाणा
करोति ॥ १३६ ॥

चमेली और सैधे नमकको एकत्र पीसकर एक लुगदी बनालेवे फिर उत्तम नीमके पत्तोंको पीसकर उस लुगदीको उन नीमके पत्तोंमें रख देवे, पश्चात् लोधको भूनकर और चारीक पीस कर उसके ऊपर लपेट देवे फिर रुईको काँजीमें भिजोकर उसके चारोंओर लपेटकर उसको नेत्रोंके ऊपर फिगावे तो सम्पूर्णदोषजन्य बहुत दिनोंके पुराने अभिष्यन्दरोग दूर होते हैं ॥ १३६ ॥

यष्टीगैरिकसिन्धूत्थदावीताक्षर्यैः स-
मांसकैः । जलपिष्टैर्बाहिलेपः सर्वने-
त्ररुजापहः ॥ १३७ ॥

मुलैठी, गेरू, सैवानमक, दारुहलदी और रसौत इन सब औषधियोंके समान भाग लेकर जलमें पीसकर नेत्रोंके ऊपर लेप करनेसे सर्वप्रकारके नेत्ररोग दूर होते हैं ॥ १३७ ॥

शिशुपल्लवनिर्यासः सुपिष्टस्ताम्रसं-
पुटे । वृतेन धूपितो हन्ति शोथघर्षा-
शुवेदनः ॥ १३८ ॥

साहिजनेके कोमल पत्तोंका रस निकालकर ताँबेके सपुटमें घिमे, फिर उसमें घी मिलाकर धूप देवे तो

नेत्रोकी सूजन, खुजली और आँसुओका गिरना ये सब दूर होते है ॥ १३८ ॥

षोडशभिः सलिलपलेस्तथैव कण्ट-
काय्याः पथःसिद्धाम् । शिलां चिरं
विमृद्य तद्रसः सर्वनेत्ररोगहरः ॥ १३९ ॥

कटेरीको सोलह पल जल और सोलह पल दूधमे पकावे, फिर उसमे बहुत समयतक मैनगिल अथवा कपूरको खरल करे । फिर उसके रसको नेत्रोंमे डाले तो सर्वप्रकारके नेत्ररोग दूर होते है ॥ १३९ ॥

एरण्डपत्रवेष्टित—बिल्वच्छदकल्कनि-
क्षितो लोध्रः । कुकूनपक्वः पिष्टः सु-
सिन्धूद्रवेन संयुक्तः ॥ १४० ॥ घन-
तरवस्त्रपरिस्रुतदारुहरिद्रा--कषाय-
मध्यगतः । आश्च्योतनेन हन्यात्स-
र्वाण्येवाक्षिशूलानि ॥ १४१ ॥

बेलके पत्तोका कल्क बनाकर उसमें लोधको डालकर अण्डके पत्तोसे बाँधकर पुटपाककी विधिसे पकावे । फिर उसका रस निचोडकर उसमे सैधान-मक मिला कर उसको दारुहलदीके काथमे डालकर वस्त्रमें छान लेवे । इस रसकी वृद्धे नेत्रोमे डालनेसे सर्व प्रकारका नेत्रशूल दूर होता है ॥ १४०॥१४१॥

अयमेव विधिः सर्वो मन्थादिष्वपि
शास्यते । अधिमन्थेषु सर्वेषु ललाटे
व्यधयेच्छिराम् ॥ अज्ञान्तौ सर्वथा
मन्थे ध्रुवोरुपरि दाहयेत् ॥ १४२ ॥

अधिमन्थरोगमे भी येही सब चिकित्सा करनी चाहिये । सर्वप्रकारके अधिमन्थोमे प्रथम ललाटकी शिराको वेधे और जो इस प्रकार करनेसे भी शांती न हो तो फिर भौहके ऊपर दाग देवे ॥ १४२ ॥

जलौकापातनं शस्तं नेत्रपाके विरे-
चनम् । शिराव्यधं वा कुर्वीत सेको
लेपस्तु शुक्रमुत् ॥ १४३ ॥

नेत्रपाकमेगमे जाँक लगावे, विरेचन देवे, शिरा-वेध करावे तथा नेत्रशुकनाशक लेक और लेप प्रयोग करे ॥ १४३ ॥

विभीतकशिवा--धात्री-पटोलारिष्ट-
वासकैः । काथो गुग्गुलुना पेयः
शोथाक्षिपाकरोगमुत् ॥ १४४ ॥
पिल्लञ्च सत्रणं शुक्ररामादींश्च विना-
शयेत् । एतैश्चापि घृतं पक्वं रोगा-
स्तांश्च व्यपोहति ॥ १४५ ॥

वहेडा, हरड, आमले, पटोलपत्र, नीमके पत्र और अड्डसा इनके काथमे गुग्गल डालकर पान करनेसे नेत्रोकी सूजन, नेत्रपाक, पिल्ल,त्रण, शुक्र और लाली आदिरोग दूर होते है । तथा इन्हीं उपर्युक्त औष-धियोंके द्वारा घृतको पकाकर सेवन करनेसे उक्त समस्तरोग दूर होते है ॥ १४४ ॥ १४५ ॥

वासकादिकाथ ।

आटरूपाभयानिम्बधात्रीमुस्ताक्षव-
ल्कलैः । रक्तस्त्रावं कफं हन्ति चक्षुष्यं
वासकादिकम् ॥ १४६ ॥

अड्डसा, हरड, नीमकी छाल, आमले, नागर-मोथा और वहेडेकी छाल इन सबको समान भाग लेकर काथ बनाकर सेवन करनेसे रक्तस्त्राव, कफ और नेत्रोंके समस्तरोग दूर होते है ॥ १४६ ॥

द्वितीयवासकादि काथ ।

वासाघनं निम्बपटोलपत्रतित्तामृता-
चन्दनवत्सकत्वक् । कलिङ्गधात्रीद-
हनं च शुण्ठी भूनिम्बदाव्यावभया
विभीतम् ॥ १४७ ॥ पीतः समांशैः
काथितैः कषायो नृभिस्तु मुख्यान-
खिलाक्षिरोगान् । तैमिर्यकंडूपट-
लार्बुदश्च शुक्रं तथा सत्रणमव्रणं च ॥
॥ १४८ ॥ सदाहरागं सरुजं सपिहं
हन्यात्सन्नस्तानपि नेत्ररोगान् । वा-
तामयान् पित्तकफामयांश्च वासादि-
कोऽयं मुनिभिः प्रदिष्टः ॥ १४९ ॥

अड्डसा, नागरमोथा, नीमकी छाल, पटोलपत्र, कु-टकी, गिलोय, चन्दन, कुडेकी छाल, इन्द्रजौ, आमले

चीता, सोंठ, चिरायता, दारुहलदी, हरड और बहेडा इन सब ओषधियोंको समानभाग लेकर काय बना कर पान करनेसे सर्व प्रकारके मुख्य २ नेत्ररोग, तिमिर, कण्ठ, पटलगत अर्बुद, सत्रण और अत्रणशुक्र तथा दाह, लाली, पीडा, पिल एव वात, पित्त और कफजन्य समस्त नेत्ररोग दूर होते हैं। इस बॉसकादि काथको प्राचीन मुनियोने निर्दिष्ट किया है ॥ १४७ ॥ १४८ ॥ १४९ ॥

त्रिफला अथवा पथ्यादिकाथ ।
पथ्यास्तिस्रो विभीतक्यः षड् धा-
त्र्यो द्वादशैव तु । प्रस्थाद्धै सलिले
काथ्यमष्टभागावशेषितम् ॥ १५० ॥
पित्ताभिप्यन्दमास्त्रावं रोगं वा ति-
मिरं जयेत् । संरंभदाहशूलासृङ्ना-
शनं दृक्प्रसादनम् ॥ १५१ ॥

हरड ३, बहेडे ६ और आमले १२ लेवे, इन सबको एकत्र कूट कर ३२ तोले जलमें पकावे। जब पकते २ आठवाँ भाग जल बाकी रह जाय तब उतार कर छान लेवे । इस कायको पान करनेसे पित्ताभि-
प्यन्द, नेत्रस्त्राव, तिमिर, अनेक प्रकारकी पीडा, उप-
द्रव, दाह, शूल और रुविरके दोष नष्ट होते हैं। एवं दृष्टि शुद्ध होती है ॥ १५० ॥ १५१ ॥

अथ कृष्णगतरोगनिदान ।

सत्रणरोगके लक्षण ।

निमग्नरूपन्तु भवेद्धि कृष्णे सूच्येव
विद्धं प्रतिभाति यश्च । स्त्रावं स्रवे-
द्दुष्टमतीव यश्च तत्सत्रणं शुक्रमुदा-
हरन्ति ॥ १५२ ॥

जो फूला नेत्रके काले भागमें गढा हुआसा दीखे, सुईसे विंधासा मालूम हो, गोल तथा न्यथायुक्त हो और उससे गरम जल बहता हो तो उसको सत्रण-
शुक्र कहते हैं ॥ १५२ ॥

सत्रणशुक्रके साध्यासाध्यलक्षण ।

दृष्टेः समीपे न भवेत्तु यच्च न चाव-
गाहं न च संस्रवेच्च । अवेदनं वा न
च युग्मशुक्रं तत्सिद्धिमायाति कदा-
चिदेव ॥ १५३ ॥

जो फूला नेत्रकी पुतलीसे दूर हो, गहरा न हो, अधिक सवे नहीं, पीडा न हो और एकत्र दो न हों अर्थात् एक स्थानमें एकही हो तो ऐसा फूला कदाचित् साध्य होता है । किंतु जो सत्रणशुक्र दृष्टिके समीपमें हो, दूसरी त्वचामे प्राप्त हुआ हो, वेदनसहित, स्राव-
सहित और एक स्थानमें युग्मरूप हो ऐसा फूला कदापि साध्य नहीं होता ॥ १५३ ॥

अत्रणशुक्रके लक्षण ।

स्यन्दात्मकं कृष्णगते सचोषं शंखे-
न्दुकुन्दप्रतिमावभासम् । वैहायसा-
भ्रप्रतनुप्रकाशमथाऽत्रणं साध्यतमं
वदन्ति ॥ १५४ ॥

जो फूला नेत्राभिप्यन्दसे अर्थात् आंखोंके दुखनेसे उत्पन्न हुआ हो, काली पुतलीमें चूसने सरीखी पीडा हो, तथा शंख चन्द्रमा और कुन्दके फूलके समान सफेद एव आकाशके समान निर्मल और पतला हो ऐसा अत्रणशुक्र सुखसाध्य होता है ॥ १५४ ॥

अत्रणशुक्रकी अवस्थाभेदसे

असाध्यता ।

गंभीरजातं बहुलञ्च शुक्रं चिरोत्थि-
तश्चापि वदन्ति कृच्छ्रम् ॥ १५५ ॥

जो अत्रणशुक्र (फूला) गहरा हो तथा मोटा हो और बहुत दिनोंका हो उसको कष्टसाध्य जानना चाहिये ॥ १५५ ॥

अत्रणशुक्रकी अवस्थादोषसे

असाध्यता ।

विच्छिन्नमध्यं पिशितावृतं वा चलं
शिरासूक्ष्ममटाष्टिकञ्च । द्वित्वगगतं
लोहितमन्ततश्च चिरोत्थितं चापि
विवर्जनयिम् ॥ १५६ ॥ उष्णाश्रुपा-

तः पिडिका च नेत्रे यस्मिन् भवे-
न्मुद्गानिभश्च शुक्रम् । तदप्यसाध्यं
प्रवदन्ति केचिदन्ये तु यत्तित्तिरिप-
क्षतुल्यम् ॥ १५७ ॥

अत्रणशुक्र अर्थात् फूलेका मांस गिर जानेसे वीचमे गढासा पड जाय, या उसके चारोओर मांस बढ़कर उसको घेर लेवे, अथवा अचल न रहे अर्थात्

एक जगहसे दूसरी जगहमें चला जाय, सूक्ष्मगिरा-
ओमें व्याप्त हो, दृष्टि नागक हो, दूसरे पटलमें उत्पन्न
हुआ हो और चारोओरसे लाल हो तथा बहुत दि-
नोका उत्पन्न हुआ हो ऐसे शुक्रको वैद्य त्याग देवे ।
केवल दो पटलोमें प्राप्त और बहुत कालसे उत्पन्न हुआ
हो तो वह कष्टसाध्य होता है । किंतु दो पटलोमें प्राप्त
हुआ और बहुत कालसे उत्पन्न हुआ भी ऊपरके
विशेष लक्षणोवाला हो तो असाध्य होता है । नेत्रोमेंसे
गरम आसू गिरे तथा छोटी २ फुंसी हो और मूगके
ममान शुक्र (फूला) हो तो असाध्य होता है । कितनेही
वैद्य कहते हैं कि, तीतरके पखक समान ज्यामवर्ण
शुक्र (फूला) असाध्य होता है ॥ १५६ ॥ १५७ ॥

अक्षिपाकात्ययके लक्षण ।

श्वेतः समाक्रामति सर्वतो हि दोषे-
ण यस्यसितसण्डलन्तु । तमाक्षि-
पाकात्ययमाक्षिरोगं सर्वात्मकं वर्ज-
यितव्यमाहुः ॥ १५८ ॥

तीनों दोषोंसे जिसके नेत्रोंके काले भागमें चारो-
ओरसे सफेदी छा जाती है उस नेत्रपाकाको त्रिदोषज
अक्षिपाकात्यय कहते हैं । यह असाध्य है, इस कारण
उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ॥ १५८ ॥

अजकाजातके लक्षण ।

मिथ्योपचाराद्रोगाणां दोषादावा-
ततोऽपि च । अजका जायते नेत्रे
कृष्णादृष्टिसमाऽसृजा ॥ १५९ ॥

अभिप्यन्दादिरोगोंमें मिथ्या उपचार करनेसे
और दोषोंके आघातसे नेत्रके कालेभागमें जो फूला
होता है, उसको अजका कहते हैं । यह हविरसे
होता है ॥ १५९ ॥

अन्यजतसे अजकाके लक्षण ।

अजापुरीषप्रतिमो रुजावान् सलो-
हितो लोहितपिच्छलाश्च । विगृह्य
कृष्णं प्रचयोऽभ्युपैति तश्चाजकाजा-
तमिति व्यवस्येत ॥ १६० ॥

नेत्रके काले भागमें बरगीके मंगनके समान,
पीडागहित, काला तथा लाल और पिच्छल आंसु-
ओंमें शुक्र जो फूला होता है, उसको अजकाजात
कहते हैं ॥ १६० ॥

अन्यत्र ।

अजापुरीषसङ्काशा मृद्धीका फल-
सन्निभा । वातरक्तसमुत्थानां प्राय-
शस्त्वजका हि सा ॥ १६१ ॥

बकरीके मंगनके समान और दाखके समान
वातरक्तसे जो नेत्रके काले भागमें फूला उत्पन्न
होता है, उसको अजका कहते हैं ॥ १६१ ॥

अजकाजातकी साध्यासाध्यता ।

मूर्द्धाक्षिकर्णभ्रूगण्ड-शङ्खचर्माश्रिता-
जका । जायते व्यथते नेत्रं मध्यमा-
नाभिवान्तरा ॥ १६२ ॥ उष्णमसृक्
स्रवत्यक्षि दूयते क्लिद्यते भृशम् ।
असाध्यरोगसंभूतां दृष्टिजाश्च विव-
र्जयेत् ॥ स्वप्नभिन्नां च कठिनां चि-
रकालोत्थितामपि ॥ १६३ ॥

जो गिर, नेत्र, कर्ण, भ्रू, गण्ड, ललाट, शंख
और चर्म इनके आश्रयसे अजरोग उत्पन्न हुआ
हो तथा नेत्रोमें मथने कीसी अत्यन्त पीडा हो, नेत्रोंसे
गरम जल गिरता हो एवं अत्यन्त सन्ताप हो, जो
असाध्यरोगोंसे उत्पन्न हुआ हो, दृष्टिमें अपने आप
उत्पन्न हुआ हो, कठिन और बहुत दिनोका पुराना हो
ऐसा अजकाजातरोग असाध्य जानना ॥ १६२ ॥ १६३ ॥

कृष्णगत रोगोंकी चिकित्सा ।

साध्यरोगसमुत्पन्नां कृष्णजान्त्वजकां
जयेत् ॥ १६४ ॥ साध्यान्यवेक्ष्य शु-
क्राणि स्निग्धस्यासृग्विमोक्षणैः ।
आश्च्योतनसुखालेपवर्षणाञ्जनवास्ति-
भिः ॥ पुटपाकैश्च नस्यैश्च सामान्यं
शुक्रभेषजम् ॥ १६५ ॥

साध्यरोगोंसे उत्पन्न हुए और काले भागमें आश्रित
अजकारोगमें औषधि प्रयोग करे । शुक्ररोगको साध्य
समझ कर प्रथम रोगीको स्निग्ध करके फिर रक्तमो-
क्षण करावे । आश्च्योतन, सुखोष्ण प्रलेप, अंजन और
वस्तिके द्वारा वर्षण, पुटपाक और नस्य ये सब शुक्र-
की सामान्य औषधि हैं ॥ १६४ ॥ १६५ ॥

धात्रीफलं निम्बकपित्थपत्रं यष्ट्या-
हलोध्रं खदिरं तिलाश्च । काथः स
शीतो नयने निषिक्तः सर्वप्रकारं
विनिहन्ति शुक्रम् ॥ १६६ ॥

आमले, नीम, कैथके पत्ते, मुलैठी, लोध, खैर
और तिल इनका काथ बनाकर शीतल करके नेत्रो-
को सींचनेसे सर्वप्रकारका नेत्रका शुक्र (फूला) दूर
होता है ॥ १६६ ॥

फणिज्जकरसे बीजं पलाशस्य विभा-
वितम् । शोषयित्वा सुपिष्टं त-
च्चाक्षनाच्छुक्रहृत्परम् ॥ १६७ ॥

वनतुलसीके रसमें ढाकके बीजोंकी भावना देकर
सुखालेवे, फिर उनको पीसकर नेत्रोंमें आज्ञे तो शुक्र
(नेत्रका फूला) दूर होता है ॥ १६७ ॥

जात्या प्रवालं मधुकं सर्पिर्भृष्टं सु-
खोष्णाम्बु सुशीतरश्मिः । आश्च्यो-
तनं शुक्रहरं प्रदिष्टं शुक्रापहं स्त्रीप-
यसा महार्हम् ॥ १६८ ॥

चमेलीके पत्ते और मुलैठीको घीमें भूनकर फिर
मंदोष्णजलमें बोल लेवे । फिर कुछ कपूर मिलाकर
अथवा स्त्रीके दूधमें नेत्रोंमें मिला कर आश्च्योतन
करे तो नेत्रका फूला दूर होता है ॥ १६८ ॥

सैन्धवं बृहतीमूलं ताम्रचूर्णं सनाग-
रम् । धात्रीरसेन पिष्टा च ताम्रपात्रं
प्रलेपयेत् । तत्पूते धूमयेच्चैनं शुद्धशु-
क्रं व्यपोहति ॥ १६९ ॥

सैधानमक, बड़ी कटेरीकी जड़, ताँबेका चूर्ण और
सोंठ इन सबको आमलोके रसमें पीसकर ताँबेके
पात्रमें लेप करदेवे । फिर उसको छुडाकर वस्त्रमें
छानकर धूनी देनेसे शुद्धशुक्र नष्ट होता है ॥ १६९ ॥

शुद्धशुक्रनिशायष्टी शारिवाशाव-
राम्भसा । सेचयेन्नेत्रयोर्दोषि कृष्णां-
भो मग्नजां तथा ॥ १७० ॥

शुद्धशुक्ररोगमें हलदी, मुलैठी, गारिवा और लोध
इनको जलमें पीसकर नेत्रोंको सींचे ॥ १७० ॥

क्षुण्णपुत्रागपर्णेन परिभावितवारि-
णा । श्यामाकाथाम्बुना वाथ सेवनं
शुक्रनाशनम् ॥ १७१ ॥

पुत्रागके पत्तोंको तोड़कर उनका रस निकालकर
जलमें मिलाकर सिंचन करनेसे अथवा पीपलके
काथके जलसे नेत्रोंको सेचन करनेसे फूला नष्ट होता
है ॥ १७१ ॥

सैन्धवं त्रिफलाकृष्णा-कटुका-शं-
खनाभयः । सताम्ररजसो वार्तिः शु-
द्धशुक्रविनाशिनी ॥ १७२ ॥

सैधानमक, त्रिफला, पीपल, कुटकी, शंखकी
नाभि और ताँबेका चूर्ण इन सबको एकत्र पीसकर
बत्ती बनाकर नेत्रोंमें लगानेसे शुद्धशुक्र नष्ट होता
है ॥ १७२ ॥

स्थिरशुक्रे घने चैव बहुशोऽपहरेद-
सृक् । शिरः कायविरेकांश्च पुटपा-
कांश्च कारयेत् ॥ १७३ ॥

जो शुक्र स्थिर और गाढा हो तो बारम्बार रुधिर
निकलवावे तथा शिरोविरेचन और कायविरेचन
एवं पुटपाकविधि करे ॥ १७३ ॥

समुद्रफेनसिन्धूत्थशङ्खदक्षाण्डवलक-
लैः । शिशुबीजयुतैर्वर्तिः शुक्रादी-
च्छस्त्रवल्लिखेत ॥ १७४ ॥

समुद्रफेन, सैधानमक, शंख, मुरगके अण्डेका
वकल और सहिजनेका बीज इन सबको एकत्र पीस-
कर बत्ती बनावे । उस बत्तीके नेत्रोंमें लगानेसे शुक्रा-
दिरोग तत्काल नष्ट हो जाते हैं ॥ १७४ ॥

वटक्षीरेण संयुक्तं श्लक्ष्णकपूररजं रजः ।
क्षिप्रमञ्जनतो हन्ति शुक्रं वापि घ-
नोन्नतम् ॥ १७५ ॥

कपूरके चूर्णको बडके दूधमें बारीक पीसकर
अंजन लगानेसे गाढा और उन्नत फूला तत्काल
नष्ट होजाता है ॥ १७५ ॥

शिरीषबीजनिबैश्च पिप्पलीसैन्धवै-
रपि । शुक्रे प्रघर्षणं कार्थ्यमथवा सै-
न्धवेन च ॥ १७६ ॥

सिरसके बीज, नीमके बीज, पीपल और सैधानमक इन सबको एकत्र पीसकर फूलेपर घिसनेसे अथवा केवल सैधेनमकसे फूलेको घिसनेसे फूला नष्ट होता है ॥ १७६ ॥

वंशजारुष्करौ तालं नारिकेलश्च तद्वहेत् । विस्त्राव्य क्षारवच्चूर्णं भावयेत्करभास्थिजम् । बहुशोऽञ्जनमेतत्स्याच्छुक्रवैवर्ष्यनाशनम् ॥ १७७ ॥

बर्षईकी छाल, भिलावे, ताड और नारियलकी छाल इन सबको जलाकर भस्म करलेवे फिर उस क्षारको जलमें नितार कर सुखा लेवे पश्चात् ऊंटकी हड्डीको जलमें पीसकर उसमें इस क्षारकी भावना देकर नेत्रोमें वारंवार आंजे तो नेत्रका फूला और विवर्णता नष्ट होती है ॥ १७७ ॥

बहुशः पलाशकुसुमस्वरसैः परिभाविता जयत्यचिरात् । नक्ताह्वबीजवर्तिः कुसुमचयं दक्षु चिरजमपि ॥ १७८ ॥

करंजके बीजोंको ढाकके फूलोंके रसमें अनेकवार भावना देकर बत्ती बना लेवे । इस बत्तीको नेत्रोमें लगानेसे बहुत दिनोंका फूला भी अवश्य नष्ट हो जाता है ॥ १७८ ॥

स्फटिकोषणयष्ट्याह-शङ्खगोदन्तसैन्धवैः । पिष्टैः सचन्दनैर्वर्तिः शुक्रघ्नी शिशुवारिणा ॥ १७९ ॥

फटकिरी, कालीमिरच, सुलैठी, शंख, गायका दांत, सैधानमक और चन्दन इन सबको एकत्र पीस कर सहिजनेके रसमें बत्ती बनालेवे । यह बत्ती लगाते ही नेत्रके फूलेको दूर करती है ॥ १७९ ॥

संवृष्य पिप्पलीचूर्णं सफेनं कांस्यभाजने । सक्षौद्रं सैन्धवोपेतमञ्जनं शुक्रनाशनाम् ॥ १८० ॥

पीपलका चूर्ण और समुद्रफेनको कांसेके पात्रमें घिसकर शहद और सैधानमक मिलाकर नेत्रोमें अञ्जन करनेसे नेत्रका फूला दूर होता है ॥ १८० ॥

समुद्रफेनमभयां द्विविरं सकुटत्रटम् । पिष्ट्वा धात्रीफलकाथे वर्तिः स्याच्छुक्रनाशिनी ॥ १८१ ॥

समुद्रफेन, हरड, सुगन्धवाला और केवटीमोंथा इन सबको एकत्र पीसकर आमलोंके रसमें खरल करके बत्ती बनालेवे । इन बत्तियोंको नेत्रोमें लगानेसे नेत्रका फूला दूर होता है ॥ १८१ ॥

चन्दनं सैन्धवं पथ्या पलाशतरुशोणितम् । मधुनाञ्जनयोगाः स्युश्चत्वारः शुक्रनाशनाः ॥ १८२ ॥

चन्दन, सैधानमक, हरड और ढाकके फूलोंका स्वरस इन चारो औषधियोंमेंसे किसी एक औषधिको लेकर शहदमें मिलाकर आंजनेसे नेत्रका फूला दूर होता है ॥ १८२ ॥

त्रिफला चन्दनं व्योषं मञ्जिष्ठा नागरं निशा । प्रियंगुशारिवानन्ता सकृदाजश्च चूर्णितम् ॥ १८३ ॥ क्षौद्रसैन्धवसर्पिभिः संयोज्य विधिवत्पचेत् । पुटपाकः प्रशस्तोऽयं शुक्राणां लेखनः परः ॥ १८४ ॥

त्रिफला, चन्दन, मजीठ, सोठ, हलदी, फूल, प्रियंगु, शारिवा, अनन्तमूल और वकरीकी विष्टा इन सबको एकत्र पीसकर उसमें शहद, सैधानमक और घी मिलाकर विधिपूर्वक पुटपाकविधिसे पकावे । इसको लगानेसे नेत्रका फूला नष्ट होता है ॥ १८३ ॥ ॥ १८४ ॥

लामज्जकाद्यञ्जन ।

लामज्जकोत्पलसिता-चन्दनद्वयकार्षिकान् । क्षिता च शारिवाप्रस्थं काथयेत्सलिलाढकम् ॥ १८५ ॥ पादशेषं परिस्त्राव्य पचेदादर्विलेपनात् । भाजने लोहशैले वा तत्प्रातः सायमञ्जनम् ॥ १८६ ॥ प्रधानमेतच्छुक्रघ्नं व्रणशुक्रं शमं नयेत् ॥ १८७ ॥

लामज्जकतृण, कमल, मिश्री और चन्दन ये प्रत्येक औषधि २ तोले और शारिवा एक प्रस्थ लेकर सबको एक आढक जलमें पकावे । जब पकते २ जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छानलेवे । फिर उसको लोहेके या पत्थरके बर्तनमें दुबारा पकावे । जब वह पकते २ खूब गाढा हो जाय अर्थात् करछीसे लगने लगे तब उतार कर शीतल

कम लेवे । इस अञ्जनको प्रातःकाल या सन्ध्याके समय नेत्रोंमें लगानेसे शुक्र और व्रणशुक्र नष्ट होता है ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ १८७ ॥

व्रणशुक्रोपशान्त्यर्थं षडङ्गं गुग्गुलुं पिबेत् । शिरसो वा हरेद्रक्तं जलो-
काभिश्च लोचनात् ॥ १८८ ॥

व्रणशुक्रको शान्त करनेके लिये षडङ्गगुलको पान करे । अथवा शिरका रुधिर निकलवावे या जौक लगवाकर नेत्रोंमेंसे रुधिर निकलवावे ॥ १८८ ॥

ससैन्धवत्रिवृक्षाथे त्रिन्वारान् पा-
चितं घृतम् । पीत्वा सर्वेषु शुक्रेषु
शीघ्रं कुर्याच्छिराव्यधम् ॥ १८९ ॥

सैधानमक और निसोतके काथमें तीनवार घृतको पकावे । उसको सर्वप्रकारके शुक्ररोगोंमें पानकरके तत्काल गिराको वेध करे ॥ १८९ ॥

यष्ट्याहृदाव्युत्पलपद्मलाक्षा प्रपौण्ड-
रीकं नलदं लता च । आश्च्योतनं स्त्री-
पयसा विपक्वं निहन्ति तत्सव्रणदा-
हशुक्रम् ॥ १९० ॥

सुलैठी, दारुहलदी, कमल, कमोदिनी, लाख, पुण्डेरिया, लामज्जकनृण और फूलप्रियंगु इन सबको एकत्र पीसकर स्त्रीके दूधमें पकाकर नेत्रोंमें आश्च्योतन करनेसे व्रण, दाह और नेत्रका फूला दूर होता है ॥ १९० ॥

श्यामामूलं कषायं वा मधुना व्रण-
शुक्रिणाम् ।

श्याम लताकी जडका काथ बनाकर उसमें शहद डाल कर पान करनेसे व्रणशुक्ररोग दूर होता है ।

रत्नानि दन्ताः शृङ्गाणि धातवश्च
फलत्रिकः । करञ्जबीजं लशुनो व्रण-
घ्नादि च भेषजम् ॥ १९१ ॥

रत्न, दाँत, सींग, धातु, त्रिफला या त्रिकुटा, करंजके बीज और लहशुन ये सब औषध व्रणशुक्रनाशक हैं ॥ १९१ ॥

सव्रणाव्रणगम्भीरत्वक् शुक्रघ्नमथा-
ञ्जनम् । हितान्येतानि सर्वाणि नरा-
णां व्रणशुक्रिणाम् ॥ १९२ ॥

व्रणशुक्र और गम्भीर त्वचावाला अव्रणशुक्र इनमें सम्पूर्ण शुक्रनाशक अञ्जन हितकारी है ॥ १९२ ॥

कतकस्य फलं शङ्खं तिन्दुकं रूप्य-
भेव च । कांस्ये निवृष्य स्तन्येन क्ष-
तशुक्रार्तिरोगजित् ॥ १९३ ॥

निर्ममलीके फल, शंख, तेंदू और रूपा इन सबको एकत्र काँसेके पात्रमें स्त्रीके दूधके साथ घिसकर नेत्रोंमें डालनेसे व्रणशुक्र और उसकी पीडा दूर होती है ॥ १९३ ॥

चन्दनं गैरिकं लाक्षा मालतीकलि-
काः समाः । व्रणशुक्रहरी वर्त्तिः शो-
णितस्य प्रणाशिनी ॥ १९४ ॥

चन्दन, गेरू, लाख और चमेलीकी कली इन सबको समानभाग लेकर बत्ती बनालेवे । इस बत्तीको नेत्रोंमें लगानेसे व्रणशुक्ररोग नष्ट होता है और रुधिर स्वच्छ होता है ॥ १९४ ॥

दन्तवर्ति ।

दन्तैर्दन्तिवराहोष्ट्रगवाश्वाजखरोद्भ-
वैः । सशङ्खमौक्तिकाम्भोऽधिफेनै-
र्भारिचपादिकैः ॥ १९५ ॥ जलपिष्टैः
कृता सर्वैर्दन्तवर्तिरिति स्मृता । ति-
मिरार्बुदकाचाम्मव्रणशुक्रविनाशि-
नी ॥ १९६ ॥

हाथीका दाँत, सूअरका दाँत, ऊँटका दाँत, बैलका दाँत, घोडेका दाँत, बकरेका दाँत और गधेका दाँत ये सब समानभाग, शंख, मोती, समुद्रफेन और कालीमिरच ये प्रत्येक चौथाई भाग लेवे । इन सबको एकत्र जलमें पीसकर बत्ती बनालेवे । यह दन्तवर्ति-तिमिर, अर्बुद, काच, अर्म और व्रणशुक्रको नष्ट करनेवाली है ॥ १९५ ॥ १९६ ॥

ताम्रे च मस्तुनोद्घृष्टं तुत्थकं श्या-
वतां गतम् । सर्वाभिष्यन्दशुक्रार्म-
शिरःशूलजिदञ्जनात् ॥ १९७ ॥

तूतियेको दहीके पानीके द्वारा ताम्रेके पात्रमें घिसे जब वह घिसते घिसते काला होजाय तब उसको

नेत्रोंमें लगानेसे सर्वप्रकारके अभिष्यन्द, शुक्र, अर्म्म और शिरःशूल नष्ट होते हैं ॥ १९७ ॥

**दक्षाण्डत्वक्शिला-शङ्करक्तचन्दनसै-
धवैः । तुल्यैरञ्जनयोगोऽयं पुष्पा-
र्म्मादिविलेखनः ॥ १९८ ॥**

गुरगीके अंडेकी छाल, मैनाशिल, शख, लालच-
न्दन, और सैधानमक इन सबको समान भाग लेकर
अंजन बनाकर नेत्रोंमें लगानेसे नेत्रका फूला और
अर्म्मादिरोग दूर होते हैं ॥ १९८ ॥

**गोशकृत्कृमयः सप्त पीताभाः क्षौ-
द्रसंयुताः । वृष्टा शुक्रहरा दृष्टाः क्ष-
तजस्य विशेषतः ॥ १९९ ॥**

गायकी विष्टाके सात पीले कृमि और गहद
इनको एकत्र घिसकर नेत्रोंमें लगानेसे शुक्र और
विशेष करके व्रणशुक्र नष्ट होता है ॥ १९९ ॥

**एकं वा पुण्डरीकञ्च गवांक्षीराव-
शेषितम् । रागाऽसृग्वेदनां हन्यात्
क्षतपाकाजकास्तथा ॥ २०० ॥**

एक था दो सफेद कमलको गोदुग्धमें पकाकर जो
दूध बचे उसको पीनेके लाली, रक्तका निकलना, रक्त-
सम्बन्धी सब प्रकारकी पीडा और घावके पकजानेसे
जो दुःख होता है वह सब दूर होता है ॥ २०० ॥

**सौवीरमञ्जनं तुल्यं ताप्यं धात्री मनः-
शिला । चतुर्हरणुमधुकं लोहं शुक्र-
घ्नमञ्जनम् ॥ २०१ ॥**

सौवीरनामक अंजन, तूतिया, सानामाखी, आमले,
मैनाशिल ये सब समान भाग और चारमटरकी बराबर
सुलैठी तथा लोहा लेवे इन सबको एकत्र पीसकर
नेत्रोंमें लगानेसे नेत्रका फूला शीघ्र नष्ट होता
है ॥ २०१ ॥

**कुक्कुटाण्डकपालानि शङ्खकाचोऽपि
चन्दनम् । सैन्धवाद्धाशसंयुक्तमञ्जनं
शुक्रलेखनम् ॥ २०२ ॥**

गुरगेके अण्डेका बकल, शंख, कांच और चन्दन
ये प्रत्येक औषधि समान भाग और सैधानमक आधा

भाग लेवे, सबको एकत्र घिसकर नेत्रोंमें आंजनेसे
नेत्रका फूला नष्ट होता है ॥ २०२ ॥

**शङ्खोतोऽञ्जनं लाक्षा मरिचं समनः-
शिलाम् । यवान्युदधिजं फेनं ताम्र-
चूर्णं समाक्षिकम् ॥ श्यामावर्तिलि-
खत्येव शुक्रकाचार्मपिष्टकम् ॥ २०३ ॥**

शंख, काला अञ्जन, लाख, कालीमिरच, मैनाशिल,
अजवायन, समुद्रफेन, तांबेका चूर्ण, पीपल और
गहद इन सबको एकत्र पीसकर बत्ती बनाकर
नेत्रोंमें आंजनेसे शुक्र, काच और अर्म्मरोग नष्ट
होता है ॥ २०३ ॥

**रसाञ्जनं सशैल्यं कुंकुमं सुमनःशि-
ला । शङ्खश्च श्वेतमरिचं शर्करा चे-
ति सप्तमम् ॥ २०४ ॥ एषा चन्द्रो-
दया नाम्ना वर्तिर्वैद्येन निर्मिता ।
हन्यात् पिल्लश्च कण्डूश्च शुक्रं सति-
मिरार्बुदम् ॥ २०५ ॥**

रसौत, भूरिल्लीला, केशर, मैनाशिल, शंख, सफे-
द मिरच और मिश्री ये सातों औषधि समानभाग
लेकर एकत्र पीसकर बत्ती बनालेवे। इसको चन्द्रोदया
वर्ती कहते है । यह पिल्ल, कण्डू, शुक्र, तिमिर और
अर्ब्बुदरोगको नष्ट करती है ॥ २०४ ॥ २०५ ॥

**अयः सयष्टिःत्रिफला कणानां चू-
र्णानि तुल्यानि पुरेण नित्यम् । स-
र्पिर्मधुभ्यां सह भक्षितानि सर्वाणि
शुक्राणि निहन्ति शीघ्रम् ॥ २०६ ॥**

लोह, सुलैठी, त्रिफला और पीपल इन सबका चूर्ण
समान भाग और गूगल सबकी बराबर भाग लेवे ।
इन सबको घी और गहदमें एकत्र मिलाकर सेवन
करनेसे सर्व प्रकारके शुक्र शीघ्र नष्ट होते हैं ॥ २०६ ॥

चूर्णाञ्जन ।

**शङ्खस्य भागाश्चत्वारस्ततोऽर्द्धेन म-
नःशिला । मनःशिलार्द्धे मरिचं
मरिचाद्धेन सैन्धवम् ॥ २०७ ॥ एत-
च्चूर्णाञ्जनं श्रेष्ठं शुक्रयोस्तिमिरेषु च ।**

पिच्छटे मधुना योज्यमर्बुदे मस्तुना
तथा ॥ २०८ ॥

शंख ४ भाग, मैन्शिल २ भाग, कालीमिरच १ भाग और सैंधानमक आधा भाग लेवे इन सबको एकत्र पीस कर अंजन बना कर शुक्र और तिमिररोगमें प्रयोग करे । पिच्छटरोगमें इसको शहदमें मिलाकर और अर्बुदरोगमें दहीके जलमें घिस कर नेत्रोंमें लगावे ॥ २०७ ॥ २०८ ॥

स्नेहनस्याञ्जनैः शुक्रं निम्नमाशु स-
मुद्धरेत् । शुक्रं करोति निर्मूलं पुट-
पाकैः सलेखनैः ॥ २०९ ॥

नीचेको प्राप्त हुए अर्थात् गहरे शुक्रको स्नेहन अंज-
नसे शीघ्र ही उखाड़ देवे । पुटपाक और लेखनपदा-
थोंमें शुक्रको निर्मूल करना चाहिये ॥ २०९ ॥

पटोलाद्यघृत ।

पटोलं कटुकां दावीं निम्बं वासां
फलत्रिकम् । इरालभां पर्पटकं त्राय-
न्तीश्च पलोन्मिताम् ॥ २१० ॥ प्रस्थ-
मामलकानान्तु काथयेन्नल्वणेऽम्भ-
सि । तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थं
विपाचयेत् ॥ २११ ॥ कल्कैर्भूनिम्बकु-
टजमुस्तयष्ट्याहचन्दनैः । सपिप्पली-
कैस्तत्सिद्धं चक्षुष्यं शुक्रयोर्हितम् ॥
२१२ ॥ घ्राणकर्णाक्षिवर्त्मत्वङ्मु-
खरोगव्रणापहम् । कामलाज्वरवीस-
र्पगण्डमालापहं परम् ॥ २१३ ॥

पटोलपत्र, कुटकी, दासुहलदी, नीमकी छाल,
अडूसा, त्रिकला, घमासा, पित्तपापडा और त्रायमाणा
ये प्रत्येक औषधि चार चार तोले तथा आमले १ प्रस्थ
लेकर सबको एक द्रोण जलमें पकावे । जब पकते
पकते जल चौथाई भाग बाकी रह जाय तब उतार कर
छान लेवे । फिर उस काथमे चिरायता, कुडकी छाल,
नागरमोथा, मुलैठी, चन्दन और पीपल इन सबका
कल्क और उत्तम गायके एक प्रस्थ घृतको डाल कर
पकावे । यह घृत-नेत्रोंको अत्यन्त हितकारी है ।
तथा शुक्रको नष्ट करता है । एवं नासिका, कर्ण, नेत्र,

वर्म, त्वचा और मुखके रोग, एवं व्रण, कामला, ज्वर,
विसर्प और गण्डमालाको नष्ट करता है ॥ २१०-२१३ ॥

द्राक्षाद्यघृत ।

द्राक्षाचन्दनमञ्जिष्ठाकाकोलीद्वयजी-
रकैः । सिताशतावरीभेदापुण्डेक्षुम-
धुकोत्पलैः ॥ २१४ ॥ पचेज्जीर्णघृत-
प्रस्थं समक्षीरं विचूर्णितैः । हन्ति
तच्छुक्रतिमिरं रक्तराजीं शिरोरु-
जम् ॥ २१५ ॥

दाख, चन्दन, मजीठ, काकोली, जीरा, काला-
जीरा, मिश्री, शतावर, भेदा, पुण्डूकईख, मुलैठी,
और कमल इनके कल्कके द्वारा बराबरके दूधमें एक
प्रस्थ पुराने घृतको पकावे । यह घृत-शुक्र, तिमिर,
रक्तराजी और शिरोरोगको नष्ट करता है ॥ २१४ ॥
॥ २१५ ॥

कृष्णाद्यतैल ।

कृष्णाविडङ्गमधुयष्टिकसिन्धुजन्म-
विधौषधैः पयसि सिद्धमिदं छग-
ल्याः । तैलं नृणां तिमिरशुक्र-
शिरोऽक्षिशूलपाकात्ययान् जयति
नस्यविधौ सुयुक्तम् ॥ २१६ ॥

पीपल, वायविडंग, मुलैठी, सैंधानमक और सोंठ
इन सबको समान भाग लेकर कल्क बना लेवे । उस
कल्कके साथ बकरिके दूधमें तेलको पकावे । यह तेल-
मनुष्योंके तिमिर, शुक्र, शिरःशूल, नेत्रशूल, पाका-
त्यय और अन्यान्य अनेक रोगोंको दूर करता है ।
इसको नस्यके द्वारा प्रयोग करना चाहिये ॥ २१६ ॥

न विना शोणितं शुक्रक्षतपाकात्य-
योऽजकाः । भवन्ति रुधिरं तेन ज-
लौकाभिरतो हरेत् ॥ २१७ ॥

शुक्र, व्रणशुक्र, पाकात्यय और अजका ये सब रोग
विना रक्तमोक्षणके दूर नहीं होते, इसकारण जौक
लगवाकर इनका रुधिर निकलवाना चाहिये ॥ २१७ ॥

अजकायां शिरां मुक्ता त्रिवृच्चूर्णाधि-
रेचयेत् । घृतं वातहरैः सिद्धमजका-

यां प्रयोजयेत् ॥ सेके पाने तथा-
ऽभ्यङ्गे भोज्ये दृष्टिविदांवरः ॥२१८ ॥

अजकारोगमें प्रथम शिराको वेधकर पश्चात् निसो-
त्तके चूर्णके द्वारा रेचन करावे । तथा वातनाशक
औषधियोंके द्वारा घृतको पका कर परिपेक, पान,
अभ्यंग और भोजनके द्वारा अजकारोगमें प्रयोग
करे ॥ २१८ ॥

पक्ववटपत्रपुटके विधाय मांसं बल्लूर-
कर्कटयः । पुटवद्विदध्याद्बद्ध्वा तद्र-
ससेको जयेदजकाम् ॥ २१९ ॥

केकडेके मांसको वडके पके हुए पत्तोंमें लपेट कर
पुटपाककी विधिसे पकावे । फिर उसके रसको
निचोड कर उससे नेत्रोंको सेचन करे तो अजकारोग
नष्ट होता है ॥ २१९ ॥

गवामस्थित्वचं कांस्ये विनिर्घृष्ट्य
सुखांबुना । पूरयेदक्षि तेनाशु प्रशा-
म्यत्यजकामयः ॥ २२० ॥

गायकी हड्डी और गायकी त्वचाको कासेके पात्रमें
घिसकर सुखोष्णजलमें मिला कर नेत्रोंमें आंजनेसे
अजकारोग शीघ्र नष्ट होते हैं ॥ २२० ॥

सैन्धवं वाजिपादश्च गोरोचनसमा-
युतम् । शैलत्वग्रससंयुक्तं पूरणं वाज-
कापहम् ॥ २२१ ॥

सैन्धानमक, घोंडेका खुर और गोरोचन इनको
एकत्र पीसकर लिसाँडेके रसमें मिला कर नेत्रोंमें
भरनेसे अजकादि रोग नष्ट होते हैं ॥ २२१ ॥

बृहच्छशकाद्यघृत ।

शशकस्य कषायेण घृतप्रस्थं विपा-
चयेत् । कल्कं दद्यात्तु सक्षीरं यथो-
क्तान् कर्षसम्मितान् ॥ २२२ ॥ शा-
रिवामधुकं लाक्षा चन्दनं नीलमु-
त्पलम् । बला चातिबला चैव मृणालं
पत्रकं तथा ॥ २२३ ॥ कार्षिकं सवि-
षालोध्रं जीवनीयगणान्वितम् ।
घृतमेतत्प्रयोक्तव्यं पाने नस्ये च
पूरणे ॥ २२४ ॥ अजकामर्जुनं काचं

पटलं शुक्रमेव च । तथाक्षिरोगान्
सकलान् वातपित्तोत्तरं जयेत् ॥२२५॥

खरगोशके काथमें शारिवा, मुलैठी, लाख, चन्दन,
नीकलमल, खिरैटी, कंधी, कमलकी नाल, तेजपात,
अतीस, लोध और जीवनीयगणकी औषधियां इन
प्रत्येकका कल्क एक २ तोला डाल कर गायके दूधमें
एक प्रस्थ घृतको पकावे । इस घृतको पान, नस्य
और अंजन कर्ममें प्रयोग करे । यह घृत-अजका,
अर्जुन, काच, पटल, शुक्र तथा सर्व प्रकारके वात-
पित्तजन्य नेत्ररोगोंको चष्ट करता है ॥ २२२ ॥
॥ २२३ ॥ २२४ ॥ २२५ ॥

दृष्टिगतरोगनिदान ।

प्रथमे पटले दोषो यस्य दृष्ट्यां व्य-
वस्थितः । अव्यक्तानि च रूपाणि
कदाचिदथ पश्यति ॥ २२६ ॥

जिसकी दृष्टिके पहिले पटलमें दोष स्थित होते हैं
वह मनुष्य रूपोंको कभी २ स्पष्ट रूपसे देखता है
और जो दोष अल्प होते हैं तो किसी समय स्पष्ट
भी देखता है ॥ २२६ ॥

दूसरेपटलगतदोषोंका स्वभाव ।

दृष्टिर्भृशं विह्वलति द्वितीयं पटल-
ङ्गते । मक्षिकान् मशकान् केशान्
जालकानीव पश्यति ॥ २२७ ॥

मण्डलानि पताकांश्च मरीचीन् कु-
ण्डलानि च । पारिप्लवांश्च विविधान्
वर्षमभ्रतमांसि च ॥ २२८ ॥ दूर-
स्थानि च रूपाणि मन्यते स समी-
पतः । समीपस्थानि दूरे च दृष्टेर्गोच-
रविभ्रमात् ॥ २२९ ॥ यत्नवानपि चा-
त्यर्थं सूचीपाशं च पश्यति ॥ २३० ॥

दूसरे पटलमें दोषके प्राप्त होनेसे सृष्टि अत्यन्त
विह्वल होजाती है, अत एव मनुष्य मकड़ी, मच्छर,
और केश आदिको मकड़ीके जालके समान देखता
है । एवं मण्डल, पताका और किरणे न हों तो भी
होनेके समान देखता है और प्रकाशमान वस्तुओंको
कुण्डलके समान गोल देखता है । परछाई आदिके
संचारको ऊचा नीचा तथा टेढा आदि अनेक प्रका
रसे देखता है और वर्षा, बादल तथा अन्धकारके न

होने पर भी उनको वह मनुष्य दृष्टिके रूपमें भ्रम होनेसे दूरके पदार्थोंको अपने समीप देखता है और समीपके पदार्थोंको दूर समझता है तथा अत्यन्त यत्न करने पर भी सुईके नुकुये (छेद) को नहीं देख सकता है ॥ २२२-२३० ॥

तृतीयपटलगतदोषके लक्षण ।

ऊर्ध्वं पश्यति नाधस्तान्तृतीयं पटलं गतं । महान्त्यपि च रूपाणि छादितानीव चाम्बरैः ॥ २३१ ॥ कर्णनासाक्षिहीनानि विकृतानीव पश्यति । यथा दोषश्च रज्येत दृष्टिदोषे बलीयसि ॥ २३२ ॥ अधःस्थे तु समीपस्थं दूरस्थं चोपरिस्थिते । पार्श्वस्थिते तथा दोषे पार्श्वस्थत्रैव पश्यति २३३ समन्ततः स्थिते दोषे संकुलानीव पश्यति । दृष्टिमध्यस्थिते दोषे महद्भ्रस्वश्च पश्यति ॥ २३४ ॥ दोषे दृष्टिस्थिते तिर्य्यगेकं वै मन्यते द्विधा । द्विधास्थिते त्रिधा पश्येद्बहुलञ्चानवस्थिते ॥ २३५ ॥

तीसरे पटलमें दोषके प्राप्त होनेपर रोगी ऊपरके पदार्थोंको अत्यन्त बड़े होनेपर भी वहाँसे ढकाहुआसा देखता है और नीचेके पदार्थोंको समीप होने पर भी नहीं देखता । कान, नाक और नेत्र आदि अवयवोंको विकृत तथा इनसे रहित शरीरको देखता है । जब दोष बलवान् होता है तब दृष्टिदोषके अनुसार वर्ण होजाता है । जब दोष नीचेके भागमें स्थित होते हैं तब रोगी समीपके पदार्थोंको नहीं देखसकता और जब दोष ऊपरके भागमें स्थित होते हैं तब दूरके पदार्थोंको नहीं देख सकता । जो दोष इधर उधर पार्श्वभागमें स्थित होते हैं तो पार्श्वकी ओरके पदार्थोंको नहीं देखसकता । जो दोष चारोंओर स्थित होने हैं तो ऊपर नीचे तथा पार्श्वके पदार्थ अलग २ होने पर भी मिलेहुए दीखते हैं । जो दोष दृष्टिके बीचमें स्थित होते हैं तो बड़े पदार्थ छोटे दीखते हैं और जो दोष दृष्टिमें टेढ़े स्थित होते हैं तो एक ही पदार्थ दो प्रकारका दीखताहै जो दोष दृष्टिके दो भा-

गोमें स्थित होते हैं तो एक पदार्थके तीन पदार्थ दीखते हैं और जो दोष अनियमित रीतिसे स्थित होते हैं तो एक पदार्थके अनेक पदार्थ दीखते हैं २३१-२३५

चतुर्थपटलगततिमिरके लक्षण ।

तिमिराख्यः स वै दोषश्चतुर्थं पटलं गतः । रुणाद्धि सर्वतो दृष्टिं लिङ्गनाशमतः परम् ॥ २३६ ॥ अस्मिन्नपि तमोभूते नातिरूढे महागदे । चन्द्रादित्यौ सनक्षत्रावन्तरिक्षे च विद्युतः ॥ २३७ ॥ निर्मलानि च रूपाणि भ्राजिष्णूनि च पश्यति । स एव लिङ्गनाशस्तु नीलिकाकाचसंज्ञितः ॥ २३८ ॥

जब दोष दृष्टिके चौथे पटलमें स्थित होजाता है तब उसको अन्धकार दीखनेके कारण तिमिर कहते हैं, वह चारोंओरसे दृष्टिको रोके देता है । इसको अन्य ग्रन्थोंमें लिंगनाश रोग कहते हैं । जबतक अन्धेरेके समान यह भयंकर रोग नवीन होता है, तबतक तो मनुष्य चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र और बिजलीको देखता है, क्योंकि आकाशके प्रकाशमान होनेसे अन्धकारका अभाव रहता है । अग्नि आदिके निर्मल तेजको भी देखता है और रत्न तथा सुवर्ण आदि प्रकाशित पदार्थोंको भी देखता है । किन्तु जब यह रोग पुराना होजाता है तब चन्द्रमा आदि प्रकाशित पदार्थ भी नहीं दीखते । इस तिमिरनामक रोगको जैसे लिंगनाशक कहते हैं उसी प्रकार नीलिका और काच रोग भी कहते हैं । लिंग अर्थात् दृष्टिके तेजको जो नाश करता है वह लिंगनाश कहा जाता है ॥ २३६ ॥ २३७ ॥ २३८ ॥

दोषविशेषके द्वारा रूपोंका दीखना ।

वातेन चात्र रूपाणि भ्रमन्तीव च पश्यति । आविलान्यरुणाभानि व्याविद्धानीव मानवः ॥ २३९ ॥

वायुके द्वारा उत्पन्न हुए लिंगनाशमें मनुष्य सम्पूर्ण रूपोंको भ्रमण करता हुआसा देखता है तथा मलिन, कुञ्ज लाल, गदले, विकृत और टेढ़े तिरछे रूपको देखता है ॥ २३९ ॥

पित्तजलिंगनाशके लक्षण ।

पित्तेनादित्यखद्योतशक्रचापतडिहु-
णान् । नृत्यंतश्चापि शिखिनः सर्वं
नीलञ्च पश्यति ॥ २४० ॥

पित्तके लिंगनाशमें मनुष्य सूर्य, पदवीजना,
इन्द्रधनुष और विजली इनको नाचते हुए मोरकी
पूछके समान विचित्र और नीले काले रंगका देखता
है ॥ २४० ॥

कफजलिंगनाशके लक्षण ।

कफेन पश्येद्रपाणि स्निग्धानि च
सितानि च । [सलिलप्लावितानीव
जालकानीव मानवः ॥ २४१ ॥

कफके लिंगनाशमें मनुष्य सम्पूर्ण पदार्थोंको चि-
कना, सफेद, जलमें डूबो कर निकाले हुएके समान
और जालके समान देखता है ॥ २४१ ॥

रक्तजलिंगनाशके लक्षण ।

पश्येद्रक्तेन रक्तानि तमांसि विवि-
धानि च । हरितान्यथ कृष्णानि
पीतान्यापि च मानवः ॥ २४२ ॥

रुधिरके द्वारा उत्पन्न लिंगनाशमें मनुष्यको लाल
और अनेकप्रकारके अन्धकाररूप, हरे, काले और
पल्ले रंगके पदार्थ दीखते हैं ॥ २४२ ॥

सन्निपातेन चित्राणि विप्लुतानीव
पश्यति । बहुधा च द्विधा वापि स-
र्वाण्येव समन्ततः ॥ हीनाधिकाङ्गा-
न्यथवा ज्योतीप्यपि च भूयसा २४३ ॥

सन्निपातके लिंगनाशमें प्रायः नानावर्णकी विपरीत
वा दो प्रकारके अथवा सर्व प्रकारके रूप चारों ओर
देखनेमें आते हैं । अथवा अधिक और हीन अंगवाले
दीखते हैं अथवा तेजोमय दीखते हैं ॥ २४३ ॥

परिम्लायिसंज्ञक लिङ्गनाशके
लक्षण ।

पित्तं कुप्यार्त्परिम्लायि मूर्च्छितं रक्त-
तेजसा । पीता दिशस्तथोद्यन्तमादि-

त्यमिव पश्यति ॥ विकीर्यमाणा-
न्खद्योतैर्वृक्षांस्तेजोभिरेव च ॥ २४४ ॥

रुधिरसे मूर्च्छित हुआ पित्त परिम्लायिनामक लिंग
नाशको उत्पन्न करता है । इसमें सम्पूर्ण दिशाएँ
पीली ही पीली दीखती हैं, सूर्य उदय होतासा दीखता
है और वृक्ष, पदवीजने तथा अग्निके तेजसे व्याप्त
दीखते हैं ॥ २४४ ॥

वातादिजन्यनेत्रके वर्णानुसार लिंग-
नाशके छः प्रकार ।

वक्ष्यामि षड्विधं रागैर्लिङ्गनाशम-
तः परम् ॥ २४५ ॥ रागोऽरुणो मा-
रुतजः प्रदिष्टो म्लायी च नीलञ्च त-
थैव पित्तात् । कफात्सितः शोणित-
जश्च रक्तः समस्तदोषप्रभवे विचि-
त्रः ॥ २४६ ॥

वातादिसे उत्पन्न हुए नेत्रोंके वर्णानुसार भी लिंग-
नाश छः प्रकारका होता है । कौनसे दोषसे नेत्रका
कौनसा रंग होता है, यह कहते हैं । वातसे लिंगनाश
हुआ हो तो नेत्रोंका रंग लाल होता है । पित्तजन्य
परिम्लायी लिंगनाश हो तो नेत्रोंका वर्ण नीला होता
है । कफजन्यलिंगनाश हो तो नेत्रोंका रंग सफेद हो-
ता है । रुधिरसे लिंगनाश हो तो नेत्रोंका रंग लाली
लिये होता है और सन्निपातसे लिंगनाश हुआ हो तो
नेत्रोंका रंग विचित्र वर्णका होता है ॥ २४५ ॥ २४६ ॥

परिम्लायिमण्डलके लक्षण ।

अरुणं मण्डलं दृष्ट्यां स्थूलकाचारु-
णप्रभम् । परिम्लायिनि रोगे स्या-
न्म्लायि नीलञ्च मण्डलम् ॥ दोषक्ष-
यात् स्वयं चात्र कदाचित् स्यात्तु द-
र्शनम् ॥ २४७ ॥

परिम्लायिरोगमें दृष्टिभागमें स्थूल काचके समान
लाल मण्डल होता है । वह लाल तथा पीला और
नीला मिला हुआ होता है । उसमें किसी समय
दोषोंके क्षय होनेसे अपने आप भी दीखने लगता
है ॥ २४७ ॥

वातादिकारणभूतसे उत्पन्न नेत्र-
मंडलके रूपविशेष ।

अरुणं मंडलं वाताच्चञ्चलं परुषं त-
था । पित्ततो मंडलं नीलं कांस्याभं
पीतमेव च ॥ २४८ ॥ श्लेष्मणा बहु-
लं स्निग्धं शङ्खकुन्देन्दुपाण्डुरम् । च-
लत्पद्मपलाशस्थः शुक्लो विन्दुरिवा-
म्भसः ॥ २४९ ॥ मृज्यमाने तु नयने
मंडलं तद्विसर्पति । प्रवालपद्मपत्राभं
मंडलं शोणितात्मकम् ॥ २५० ॥
दृष्टिरोगो भवेच्चित्रो लिङ्गनाशो त्रि-
दोषजे । यथास्वं दोषलिङ्गानि सर्वे-
ष्वेव भवन्ति हि ॥ २५१ ॥

वातसे लिङ्गनाश हुआ हो तो मण्डल-लाल,
चंचल तथा कठिन होता है । पित्तसे लिङ्गनाश हुआ
हो तो मण्डल-नीला, कांसेके समान अथवा सफेद
वा पीला होता है । (सफेद और पीला होना यह
व्याधिके प्रभावसे होता है) कफसे लिङ्गनाश हो तो
मण्डल-मोटा, स्निग्ध, शख, कुन्द और चन्द्रमाके
समान सफेद होता है और चंचल कमलके पत्रपर
पड़े हुए जलके बिटुके समान होता है । आंखको
खूब मलनेसे यह मण्डल पसर जाता है । रुधिरसे
लिङ्गनाश हुआ हो तो मण्डल प्रवालके समान और
कमलकी पंखडीके समान होता है । तीनों दोषोसे
लिङ्गनाश हो तो मण्डल लाल और विचित्र अर्थात्
वातादिदोषजनित सम्पूर्ण वर्णवाला होता है । स-
प्रकारके लिङ्गनाशोमें प्रत्येक दोषके अपने ३ लक्ष
भी अवश्य होते हैं ॥ २४८-२५१ ॥

दृष्टिरोगोंके नाम तथा संख्या ।

यथा नरः पित्तविदग्धदृष्टिः कफेन
चान्यस्तिवह धूमदर्शी । यो ह्रस्व-
जात्यो नकुलान्धता च गम्भीरसंज्ञा
च तथैव दृष्टिः ॥ २५२ ॥ षड्लिङ्ग-
नाशाः षड्भिरेव च रोगा दृष्ट्याश्र-
याः षट् च षडेव च स्युः ॥ २५३ ॥

नेत्ररोगोमें पित्तविदग्धदृष्टि १, कफविदग्धदृष्टि २,
धूमदर्शी ३, ह्रस्वजात्य ४, नकुलान्ध ५ और गम्भीर

दृष्टि ६ इस प्रकार छः तो ये और छः लिङ्गनाश
इस प्रकार दृष्टिके सब बारह रोग हैं ॥ २५२ ॥ २५३ ॥

पित्तविदग्धदृष्टि एवं दिवान्धके
लक्षण ।

पित्तेन दुष्टेन यदा च दृष्टिः पीता
भवेद्यस्य नरस्य किञ्चित् । पीतानि
रूपाणि च तेन पश्येत् स वै नरः पि-
त्तविदग्धदृष्टिः ॥ २५४ ॥

जब दुष्टहुआ पित्त दृष्टिके पहिले और दूसरे पट-
लमें प्राप्त होजाता है तब मनुष्यकी दृष्टि कुछ पीली
पडजाती है, उस समय वह सम्पूर्ण पदार्थोंको पीला
देखता है । उसको पित्तविदग्धदृष्टि कहते हैं ॥ २५४ ॥

प्राप्ते तृतीयं पटलं च दोषे दिवा न
पश्येन्निशि वीक्ष्यते सः । रात्रौ च
शीतानुगृहीतदृष्टिः पित्ताल्पभावा-
दपि तानि पश्येत् ॥ २५५ ॥

जब पित्त तीसरे पटलमें प्राप्त होता है तब उस
रोगीको दिनमें सूर्यकी गरमीसे पित्तकी अधिकताके
कारण नहीं दीखता, किन्तु रात्रिमें दीखता है । कारण
रात्रिमें पित्तकी अल्पतासे शतिलता होनेके कारण
दीखने लगता है ॥ २५५ ॥

कफविदग्धदृष्टि और नक्तान्धके
लक्षण ।

तथा नरः श्लेष्मविदग्धदृष्टिस्तान्येव
शुक्लानि च मन्यते तु ॥ २५६ ॥

दूषितहुआ कफ जब दृष्टिके पहिले, दूसरे पटलमें
प्राप्त होता है तब मनुष्य सम्पूर्ण पदार्थोंको सफेद ही
देखता है, इसको कफविदग्धदृष्टि कहते हैं ॥ २५६ ॥

त्रिषु स्थितोऽल्पः पटलेषु दोषो न-
क्तान्धमापादयति प्रसह्य । दिवा
स सूर्यानुगृहीतदृष्टिः पश्येत् रूपा-
णि कफाल्पभावात् ॥ २५७ ॥

थोडासा ही कफ जब नेत्रोके तीनों पटलोंमें प्राप्त
होजाता है, तब हठात् रात्र्यन्धरोगको उत्पन्न करता
है । इसमें सूर्यके अनुग्रहसे दिनमें जब कफ कम
होजाता है तब दीखता है, किन्तु रात्रिमें कफाधिक्यके

कारण नहीं दीखता। इस रोगको रात्र्यन्ध और देग-
भापामे रतौधा या रतौधी कहते हैं ॥ २५७ ॥

धूमदृष्टिके लक्षण ।

शोकज्वरायासशिरोऽभितापैरव्याह-
ता यस्य नरस्य दृष्टिः । स धूमका-
न्पश्याति सर्वभावान्स धूमदर्शीति
नरः प्रदिष्टः ॥ २५८ ॥

शोक, उवर, परिश्रम और शिरस्ताप इन कारणों-
से पित्त कुपित होकर जिस मनुष्यकी दृष्टिको विगाड
देता है तब वह मनुष्य सम्पूर्ण पदार्थोंको धुंयेके रङ्ग-
के समान देखता है, उसको धूमदर्शी कहते हैं। धूम-
दर्शी दृष्टि दिनमें ही होती है रात्रिमें नहीं, कारण इस-
में पित्त प्रधान है। रात्रिमें पित्त जब शांत होजाता
है तब दृष्टि निर्मल होजाती है ॥ २५८ ॥

ह्रस्वजात्यके लक्षण ।

यो ह्रस्वजात्यो दिवसेऽतिकृच्छ्राद्भ्र-
स्वानि रूपाणि च तेन पश्येत् । रात्रौ
पुनर्यः प्रकृतानि पश्येत्स ह्रस्व-
जात्यो मुनिभिः प्रदिष्टः ॥ २५९ ॥

जो मनुष्य दिनमें अत्यन्त कष्टसे देखे तथा बड़े
बड़े पदार्थोंको भी छोटा देखे और रात्रिमें सम्पूर्ण
रूप जैसेके जैसे देखे तो उस रोगको मुनि ह्रस्वजात्य
कहते हैं ॥ २५९ ॥

नकुलान्ध्यके लक्षण ।

विद्योतते यस्य नरस्य दृष्टिर्दोषाभि-
पन्ना नकुलस्य यद्भूत् । चित्राणि रू-
पाणि दिवा स पश्येत्स वै विकारो
नकुलान्ध्यसंज्ञः ॥ २६० ॥

जिस मनुष्यकी दृष्टि दोषोंसे दूषित होकर नौलके
नेत्रोंके समान चमकती है और वह मनुष्य दिनमें
चित्रविचित्र रूपोंको देखता है, उसको नकुलान्ध्यरोग
कहते हैं ॥ २६० ॥

गम्भीरदृष्टिके लक्षण ।

दृष्टिर्विरूपा श्वसनोपसृष्टा सङ्कोचम-
भ्यन्तरतस्तु याति । रुजावगाढा
च तमक्षिरोगं गम्भीरिकेति प्रवद-
न्ति तज्ज्ञाः ॥ २६१ ॥

जिस मनुष्यकी दृष्टि वायुसे उपहत होकर विकृत
हो जाती है, संकुचित होकर भीतरको चलीजाती है
और अत्यन्त भयंकर पीडासे युक्त होती है तो उस
नेत्ररोगको विद्वान् बध गम्भीरिका दृष्टि कहते
हैं ॥ २६१ ॥

आगन्तुज लिंगनाशके लक्षण ।

बाह्यौ पुनर्द्राविह संप्रदिष्टौ निमि-
त्तश्चाप्यनिमित्ततश्च । निमित्ततस्त-
त्र शिरोऽभितापाज्ज्ञेयस्त्वभिष्यन्द-
निदर्शनः सः ॥ २६२ ॥

सुश्रुतादि आचार्योंने जो दृष्टिके बारह रोग कहे हैं
उनमें दो रोग चरकादि मुनियोने अधिक कहे हैं। वे
यह हैं, एक नो सनिमित्तलिंगनाश और दूसरा अनि-
मित्तलिंगनाश। विपैले फूलोंकी गन्धवाली पवनके
स्पर्शनरूप निमित्तसे मस्तकमें अभिताप होकर जो
लिंगनाश होता है उसको सनिमित्तलिंगनाश कहते
हैं। अभिष्यन्दके लक्षणोंसे इस रोगको जानना
चाहिये ॥ २६२ ॥

अनिमित्तलिंगनाशके लक्षण ।

सुरर्षिगन्धर्वमहोरगाणां सन्दर्शने-
नापि च भास्करस्य । हन्येत दृष्टि-
र्मनुजस्य यस्य स लिंगनाशस्त्वानि-
मित्तसंज्ञः ॥ २६३ ॥ तत्राक्षिविस्प-
ष्टमिवावभाति वैदूर्यवर्णा विमला
च दृष्टिः । विभिद्यते सीदति हीयते
च नृणामभीघातहता च दृष्टिः ॥ २६४ ॥

देव, ऋषि, गन्धर्व, महासर्प और सूर्य इनके स-
न्मुख दृष्टि लगाकर देखनेसे जिस मनुष्यकी दृष्टि
नष्ट होजाती है, उसको अनिमित्तलिंगनाश कहते हैं
इसमें नेत्र निर्मल और दृष्टि वैदूर्यमणिके समान स्व-
च्छ होती है। देवादिलोक विशेष करके, सर्वजनोंको
नहीं दीखते, इस कारण उनके दर्शनरूप निमित्तसे
उत्पन्न हुए लिंगनाशको अनिमित्त माना है। इसमें
अभिघातके कारण मनुष्यकी दृष्टि फट जाती है, संकु-
चित होती है अथवा कम होजाती है २६३ ॥ २६४ ॥

साध्यासाध्य ।

व्रजयेदुपसर्गोत्थं गम्भीरं ह्रस्वसंज्ञि-
तम् । काचांस्तु याप्यते सर्वात्रकु-
लान्ध्यं तथैव च । तिमिरं नेत्ररोगेषु
कष्टं तद्यत्नतो हरेत् ॥ २६५ ॥

नेत्ररोगोमे सनिमित्तोत्पन्न, गम्भीरदृष्टि और ह्रस्व
दृष्टि असाध्य है, काच और नकुलान्ध्य याप्य है
और तिमिर रोग अत्यन्त कष्टसाध्य है इस कारण
यत्नपूर्वक इसकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २६५ ॥

दृष्टिगत रोगकी चिकित्सा ।

मूलं दृष्टिविनाशस्य तिमिरं समु-
दाहृतम् । ऋषिभिस्तूदितं तस्मान्तस्य
कुर्व्याच्चिकित्सितम् ॥ २६६ ॥

नेत्रोके सम्पूर्ण रोगोमे दृष्टिको नाश करनेका मूल
कारण तिमिररोग कहा है, इस कारण इस तिमिर रोग-
की यत्नपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २६६ ॥

द्वे पादमध्ये पृथुसन्निवेशे शिरोगते
ते बहुधा च नेत्रे । ता म्रक्ष्णोच्छाद-
नलेपनादीन्पादप्रयुक्तान्नयनं नय-
न्ति ॥ २६७ ॥

पाँवोकी दो मोटी नसे मस्तकमे गई है और
उनमेसे बहुतसी छोटी छोटी नसे नेत्रोंमें पहुँची है ।
इस कारण पाँवोंमे सेचन, मर्दन और लेपन करनेसे
वे नसें नेत्रोंको लाभ पहुँचाती हैं ॥ २६७ ॥

मलोष्णसंघट्टनपीडनाद्यैस्ता दूषय-
न्ते नयनानि दुष्टाः । भजेन्नरो दृष्टि-
हितानि तस्मादुपानदभ्यञ्जनधाव-
नानि ॥ २६८ ॥

मैलसे, गरमीसे, संघट्टनसे तथा दवाने आदिसे
दूषित हुई पाँवोंकी नसें नेत्रोंको विगाड देती हैं, इस
कारण जूतेका पहरना, पाँवोंपर मालिस करना और
पाँवोंको धोना ये सब कार्य सदैव करने चाहिये । ये
सब नेत्रोंके लिये हितकारी है ॥ २६८ ॥

नेत्ररोगमें पथ्य ।

जीवन्तिशाकं सुनिषण्णकश्च सतंडु-
लीयम्बरवास्तुकश्च । चिल्ली तथा

मूलकपोतिका च दृष्टेर्हितं शाकुन-
जाङ्गलश्च ॥ २६९ ॥

जीवंतीका शाक, शिरिआरीका शाक, चौलाई-
शाक, बथुआ, चिल्ली (लाल बथुआ) मूली और पोई-
का शाक तथा पक्षी और जंगलप्रदेशके जीवोंका
मांस ये सब नेत्रोंको हितकारी है ॥ २६९ ॥

पटोलकर्कोटककारवेल्हवार्ताकतर्का-
रिकरीरजानि । शाकानि शिग्रवा-
त्तंगलानि चैव हितानि दृष्टेर्वृतसा-
धितानि ॥ २७० ॥

पटोलपत्र, ककोडा, करेला, वैगुन, अरणी, करी-
ल, सहजनेके पत्ते और पियावाँसा ये सब शाक
घृतमें सिद्ध किये हुए पथ्य है ॥ २७० ॥

त्रिफलाघृतमधुयवाः पादाभ्यङ्गः श-
तावरीमुद्गाः । चक्षुष्यः संक्षेपाद्दुर्गः
कथितो भिषग्भिरयम् ॥ २७१ ॥

त्रिफला, घी, शहद और जौ इनका सेवन, पाँवों-
पर मालिस, शतावर और मूँग ये समस्त पदार्थ
नेत्रोंके लिए अत्यन्त हितकारी हैं, विद्वान् वैद्योंने
यह संक्षिप्त पथ्यवर्ग कहा है ॥ २७१ ॥

नेत्ररोगमें अपथ्य ।

कटुम्लगुरुतीक्ष्णोष्णमाषनिष्पावमै-
थुनम् । मद्यं बल्लूरपिण्याकं मत्स्यं
शाकं विरूढकम् ॥ विदाहीन्यन्नपा-
नानि नेत्ररोगी विवर्जयेत् ॥ २७२ ॥

चरपरे पदार्थ, खट्टे पदार्थ, भारी पदार्थ, तीक्ष्ण
पदार्थ, गरम पदार्थ, उडद, लोविया, स्त्रीप्रसंग,
मदिरा, सूखा हुआ मांस, खल, मछली, शाक, जिनमें
अंकुर उत्पन्न होगये हों ऐसे धान्य और दाहकारक
अन्नपान इन सबको नेत्ररोगी न्यागदेवे ॥ २७२ ॥

स्निग्धानि नस्याञ्जनशोधनानि पा-
काः पुटानामथ तर्पणश्च । घृतस्य
पानान्यथ वस्तिकर्म कुर्व्याद्भीक्षणं
तिमिरेऽनिलोत्थे ॥ २७३ ॥

स्निग्ध नस्य, अंजन, विरेचन, पुटपाक, तर्पण, घृत-
पान और वस्तिकर्ममे सब क्रियाये वातजन्य
तिमिररोगमे करनी चाहिये ॥ २७३ ॥

रास्नादिघृत ।

रास्नाफलत्रयक्वाथे दशमूलरसे शृत-
म् । कल्केन जीवनीयानां घृतं ति-
मिरनाशनम् ॥ २७४ ॥

रास्ना, त्रिफला और दशमूलके काथमें जीवनीय-
गणकी औषधियोंका कल्क डाल कर घृतको सिद्ध
करे यह घृत तिमिरको नष्ट करता है ॥ २७४ ॥

वातिके तिमिरे पक्वं दशमूलरसे
घृतम् । त्रिवृच्चूर्णसमायुक्तं वैरेकार्थं
प्रयोजयेत् ॥ २७५ ॥

वातिके तिमिररोगमे दशमूलके काथमें घृतको सि-
द्ध करके उसमें निसोतका चूर्ण डाल कर विरेचनके
लिये देवे ॥ २७५ ॥

त्रिफलादशमूलानां निर्यूहं दुग्धमि-
श्रितम् । गन्धर्वतैलसंयुक्तं प्रयुञ्जीत
विरेचनम् ॥ २७६ ॥

त्रिफला और दशमूलके काथमें दूध और अण्डी-
का तेल डालकर विरेचनके लिये प्रयोग करे २७६ ॥

अथ पित्ततिमिरकी चिकित्सा ।

शीताञ्जनाश्च्योतनतर्पणैश्च नस्यैर्वि-
रेकैर्मृदुभिर्घृतैश्च । तित्तप्रधानैस्तिमिरं
निहन्यात्पित्तात्मकं शोणितमोक्ष-
णैश्च ॥ २७७ ॥

पित्तजन्य तिमिररोगको शीतल अंजन, आश्च्यो-
तन, तर्पण, नस्य, विरेचन, घृतपान, विशेष करके
तित्त पदार्थोंका सेवन और रक्तमोक्षण इन उपचा-
रोंके द्वारा शमन करे ॥ २७७ ॥

पित्तजे तिमिरे सर्पिर्जीवनीयवरा-
शृतम् । पाययित्वा शिरां विध्येत्सि-
तैलाकुम्भसम्भवैः ॥ २७८ ॥ चूर्णै-
र्माक्षिकसंयुक्तं रेचनं कारयेत्तराम् ।

शतिलां लेपसेकांश्च शिरोवदनच-
क्षुपु ॥ २७९ ॥

पित्तजन्यतिमिररोगमे-जीवनीयगणकी औषधि और
त्रिफलेके काथमे सिद्ध किये हुए घृतको पान करा-
कर शिरावेध करे। एव मिश्री, इलायची और निसोत
इनका चूर्ण करके उसको गहदमें मिलाकर विरे-
चनके लिये देवे। फिर शीतल औषधियों मस्तक मुख
और नेत्रोंमे प्रलेप और संचन करे ॥ २७८ ॥ २७९ ॥

बलाशतावरीवीरासितासैरेयकैः प-
चेत् । त्रिफलासहितं सर्पिस्तिमिर-
द्रमनुत्तमम् ॥ २८० ॥

खिरौटी, सतावर, काकोली, मिश्री और पिया-
वॉस एव त्रिफला इनके कल्क और काथके द्वारा
घृतका पकावे। यह घृत-तिमिररोगको दूर करनेके
लिए उत्तम है ॥ २८० ॥

शारिवाशावरोशीरमुक्तापद्मकचन्द-
नम् । पिष्टं वर्तिकृतं हन्ति पित्तोत्थं
तिमिरं नृणाम् ॥ २८१ ॥

शारिवा, लोध, खस, मोती, पद्माख और
चन्दन, इनको एकत्र पीसकर वर्ती बनाकर नेत्रोंमें
लगानेसे पित्तजन्यतिमिररोग दूर होता है ॥ २८१ ॥

कफतिमिरकी चिकित्सा ।

तीक्ष्णानि यस्याञ्जनशोधनानि पा-
काः पुटानामथ तर्पणानि । घृतानि
वासान्त्रिफलापटोलसंज्ञानि कुर्या-
त्तिमिरे कफोत्थे ॥ २८२ ॥

कफजन्यतिमिररोगमे तीक्ष्ण नस्य, अञ्जन, वि-
रेचन, पुटपाक, तर्पण, वासाघृत, त्रिफलाघृत और
पटोलघृत ये सब प्रयोग करे ॥ २८२ ॥

कफोद्भवे वराचव्यामृताक्वाथशृतं
हविः । पाययित्वा शिरां विध्येद्रे-
चनं तिमिरे भिषक् ॥ २८३ ॥

कफजन्यतिमिररोगमे-त्रिफला, चव्य, और गिलो-
यके काथमे सिद्ध किये हुए घृतको पान करा कर
शिरावेध करे और रेचन जुलाब देवे ॥ २८३ ॥

यूथी पथ्या कणा शुण्ठीकुसुम्भस्या-
म्बुनिर्झरः । गोमूत्रकाथिता शुण्ठी
त्रिवृत्सिद्धं विरेचयेत् ॥ २८४ ॥

जूही, हरड, पीपल, सोंठ और कुसूमके फूल इनको
झरनेके जलमें औटाकर अथवा सोंठको और निसोत-
को गोमूत्रमें सिद्ध करके विरेचनके लिये देवे ॥ २८४

नस्यं मरिचयष्ट्याहविडङ्गामरदारु-
भिः । नैपालत्रिफलाशङ्खकान्ताव्यो-
षध्वपेषिताः ॥ वार्ति कृत्वा बला-
सोत्थमञ्जनं तिमिरं हरेत् ॥ २८५ ॥

कालीमिरच, मुलैठी, वायविडंग, देवदारु इनकी
नस्य देवे। नैपालदेशीय चिरायता, त्रिफला, शंख, फूल-
प्रियंगू और त्रिकुटा इनको एकत्र पीसकर वत्तियों
बनालेवे । इन वत्तियोंको नेत्रोंमें लगानेसे कफजन्य-
तिमिररोग दूर होता है ॥ २८५ ॥

संसर्गं सन्निपाते च यथा दोषोदय-
क्रिया । धात्री रसाञ्जनं क्षौद्रं सर्पि-
भिस्तु रसक्रिया । पित्तानिलाक्षि-
रोगघ्नी तैमिर्य्यपटलापहा ॥ २८६ ॥

द्वन्द्वज और त्रिदोषज तिमिररोगमें यथादोषानुसार
चिकित्सा करे। इसमें आमले, रसात, शहद और घी
इनके द्वारा रसक्रिया करे तो पित्तवातजन्य नेत्ररोग,
तिमिररोग और पटलरोग दूर होता है ॥ २८६ ॥

दध्यान्मसूरनिर्यूहं चूर्णितं कणसैन्ध-
वम् । तच्छृतं सवृतं भूयः पचेत्क्षौद्रं
घने ततः ॥ शीते चास्मिन्हितमिदं
सर्वजे तिमिरे हितम् ॥ २८७ ॥

मसूरके काथमें पीपल और सैधानमकके कल्कको
डालकर घृतको पकावे जब वह पककर तैयार होजा-
य तब नीचे उतार कर घृतको छान लेवे फिर उसमें
शहद डालकर पकावे । जब वह गाढा होजाय तब
नीचे उतार कर जीतल होनेपर नेत्रोंमें आँजे यह
घृत-सर्वप्रकारके तिमिररोगोंमें हितकारी है ॥ २८७ ॥

भभुकामलकस्नानं पित्तघ्नं तिमिरा-
पहम् ।

मुलैठी और आमलोंको पीसकरके जलमें मिलाकर
स्नान करनेसे पित्त और तिमिररोग नष्ट होता है ।

वचाद्यैः स्नानमिच्छन्ति श्लेष्मघ्नं ति-
मिरापहम् ॥ २८८ ॥

वचआदि औषधियोंके द्वारा स्नान करनेसे कफ
और तिमिररोग नष्ट होता है ॥ २८८ ॥

स्नानं कृष्णतिलैश्चापि चाक्षुष्यं ति-
मिरापहम् ।

काले तिलोंके द्वारा स्नान करना नेत्रोंको अत्यंत
हितकारी है और तिमिररोगको दूर करता है ।

आमलैः सततं स्नानं परं दृष्टिबला-
वहम् ॥ २८९ ॥

आमलोके द्वारा सदैव स्नान करनेसे दृष्टिके
बलकी अत्यन्त वृद्धि होती है ॥ २८९ ॥

चित्रकमूलत्रिफलापटोलयवसाधितं
पिवेदम्भः । सवृतं निशि चाक्षुष्यं
तिमिराणि विशेषतो हन्ति ॥ २९० ॥

चीतेकी जड़, त्रिफला, पटोलपत्र और जौ इनका
काथ बनाकर उसमें घृत डालकर रात्रिमें पान करे।
यह काथ नेत्रोंको अत्यन्त हितकारी और विशेष
करके तिमिररोगको दूर करनेवाला है ॥ २९० ॥

कल्कः काथोऽथवा चूर्णं त्रिफलाया
निषेवितम् । मधुना हविषा वापि
समस्ततिमिरान्तकृत् ॥ २९१ ॥

त्रिफलेके कल्कको अथवा काथको या चूर्णको
शहद या घीमें मिलाकर सेवन करनेसे सर्वप्रकारका
तिमिररोग नष्ट होता है ॥ २९१ ॥

त्रिफालोहचूर्णं वा माक्षिकं मधुय-
ष्टिका । सायं मध्वान्वितं भुक्तं सद्य-
स्तिमिरनाशनम् ॥ २९२ ॥

त्रिफला, लोहचूर्ण, सोनामाखी और मुलैठी इन
सबको एकत्र पीसकर शहदमें मिलाकर संध्याके
समय सेवन करनेसे तिमिररोग शीघ्र दूर होता है २९२

कुष्ठमुत्पलयष्टी च पिप्पलीरक्तचन्द-
नम् । अञ्जनध्वन्दनश्चैव सद्यस्तिमि-
रनाशनम् ॥ २९३ ॥

कूठ, कमल, मुलैठी, पीपल, लालचन्दन, अंजन और चन्दन इन सबको एकत्र पीसकर सेवन करनेसे तिमिररोग तत्काल दूर होता है ॥ २९३ ॥

धात्रीसैन्धवकृष्णाभिस्तुल्याभिर्मरिचं समम् । क्षौद्रयुक्तं निहन्त्याशु पटलश्च रसक्रिया ॥ २९४ ॥

आमले, सैधानमक, पीपल और कालीमिरच इन सबको एकत्र पीसकर शहदमें मिलाकर रसक्रिया करनेसे पटलगतरोग और तिमिर आदि रोग नष्ट होते हैं ॥ २९४ ॥

लिह्यात्सदा वा त्रिफलां सुचूर्णितां घृतप्रगाढां तिमिरेऽथ पित्तजे । समीरणे तैलयुतां कफात्मके मधुप्रगाढां विदधीत युक्तितः ॥ २९५ ॥

पित्तजन्य तिमिररोगमें त्रिफलेके चूर्णको घीमें मिलाकर नित्य सेवन करना चाहिए । वातज तिमिररोगमें तेलमें मिलाकर सेवन करना चाहिए और कफजन्य तिमिररोगमें शहदमें मिलाकर सेवन करना चाहिए । इससे तीनों प्रकारका तिमिररोग दूर होता है ॥ २९५ ॥

सघृतं वा वराक्काथं शीलयेत्तिमिरामये । पायसं वा वरीयुक्तं शीतं समधुशर्करम् ॥ २९६ ॥

तिमिररोगमें त्रिफलेके काथमें घी मिलाकर पान करे अथवा खीरको शीतल करके उसमें गतावरका चूर्ण डालकर शहद और खांडके साथ खावे ॥ २९६ ॥

शतावरीपायस एव केवलस्तथा कृतो वामलकेषु पायसः । प्रभूतसर्पिस्त्रिफलोदकोत्तरो यवोदनो वा तिमिरं व्यपोहति ॥ २९७ ॥

केवल गतावरकी खीरको सेवन करनेसे अथवा आमलोकी खीर बनाकर सेवन करनेसे वा त्रिफलेके काथमें खूब घी डालकर सेवन करनेसे अथवा जौका भात बनाकर सेवन करनेसे तिमिररोग नष्ट होता है ॥ २९७ ॥

त्रिफलायाः कषायस्तु धावनात्रेत्ररोगजित । कवलान्मुखरोगघ्नः पानतः कामलापहः ॥ २९८ ॥

त्रिफलेके काथसे नेत्रोंको धोनेसे नेत्ररोग दूर होता है । त्रिफलेके काथके कवलको धारण करनेसे मुखरोग और पान करनेसे कामलारोग दूर होता है ॥ २९८ ॥

अयस्थं त्रिफलाक्काथं सर्पिषा सह योजितम् । भुक्तोपरि पिबेत्सायं मासेनान्धोऽपि पश्यति ॥ २९९ ॥

लोहेके वासनमें त्रिफलेके काथको बनाकर उसमें घी मिलाकर भोजन करनेके पश्चात् संध्याके समय पान करनेसे एक महीनेमें अंधा मनुष्य भी देखने लगता है ॥ २९९ ॥

पुराणसर्पिस्तिमिरेषु सर्वतो हितं भवेदायसभाजनस्थितम् । हितश्च विद्यात्रिफलाघृतं सदा कृतश्च यन्मेषविषाणनामभिः ॥ ३०० ॥

पुराने घीको लोहेके पात्रमें रखकर सेवन करनेसे सब प्रकारका तिमिररोग दूर होता है । एव त्रिफला घृतमें मेढाशिंगीका चूर्ण डालकर सेवन करना सदैव नेत्रोंको हितकारी है ॥ ३०० ॥

त्रिफलायाः कषायंण प्रातर्नयनधानात् । जाता रोगा विनश्यन्ति न भवन्ति कदाचन ॥ ३०१ ॥

त्रिफलेके काथसे प्रातःकाल नेत्रोंको धोनेसे सम्पूर्ण नेत्ररोग नष्ट होते हैं और फिर कभी उत्पन्न नहीं होते ॥ ३०१ ॥

जलगंडूषैः प्रातर्भूयोऽम्भोभिः प्रपूर्य मुखरन्ध्रम् । निर्दयमुक्षत्रक्षि क्षपयति तिमिराणि ना सद्यः ॥ ३०२ ॥

प्रातःकाल शीतल जलके गण्डूप मुखमें धारण करके फिर निर्दयी होकर नेत्रोंपर मारनेसे तत्काल तिमिर रोग दूर होता है ॥ ३०२ ॥

भुक्त्वा पाणितलं घृष्टा चक्षुषोर्यादि दीयते । अचिरेणैव तद्धारि तिमिराणि व्यपोहति ॥ ३०३ ॥

भाजनके पश्चात् हाथोंकी हथेलीको घिसकर नेत्रोंमें वारम्बार लगानेसे तिमिररोग शीघ्र ही दूर होता है ॥ ३०३ ॥

त्रिफलाकाथयुक्तेन क्षौद्रमिश्रेण गु-
गुलुम् । भुक्त्वा गन्धर्वतैलेन रेचनं
तिमिरापहम् ॥ ३०४ ॥

त्रिफलेके काथमे गृहद और गुगुल मिलाकर अण्डाका तेल डालकर विरेचन देनेसे तिमिररोग दूर होता है ॥ ३०४ ॥

अञ्जनं गैरिकं पत्रं कर्पूरं नीलमुत्प-
लम् । सनागपुष्पं मधुकमञ्जनं ति-
मिरापहम् ॥ ३०५ ॥

अंजन, गेरू, तेजपात, कपूर, नीलकमल, नागके-
शर और मुलैठी इन सबको एकत्र पीसकर अञ्जन
बनाकर नेत्रोंमें आंजनेसे तिमिररोग दूर होता
है ॥ ३०५ ॥

कतकस्य फलं, वृष्टं मधुना सह यो-
जयेत् । प्रभूततिमिरघ्रावे धूपितञ्च
प्रशाम्यति ॥ ३०६ ॥

प्रबल तिमिर और नेत्रन्धावमे निर्मलीके फलोको
घिसकर गृहदमें मिलाकर धूप देनेसे तिमिर और
नेत्रन्धाव दूर होता है ॥ ३०६ ॥

त्रिफलामायसं चूर्णं काथयित्वा वि-
चक्षणः । वृत्त्रिभागसंयुक्तमभयाक-
र्षमेव च ॥ ३०७ ॥ भक्तस्योपरि पानं
स्यादहो मांसेन भोजनम् । पटलं
तिमिरं काचमर्बुदं कण्डवेदनम् ॥
सप्तरात्रोपयोगेन अन्धोऽपि तेन प-
श्यति ॥ ३०८ ॥

प्रवीण मनुष्य त्रिफला और लोहक चूर्णका काथ
बनाकर उसमें बी तीन भाग और हरड़ोंका चूर्ण एक
तोला डालकर भोजनके पश्चात् सेवन करे और इस
पर दिनमें मांसका भोजन करे । इससे पटल, तिमिर,
काच, अर्बुद, खुजली, वेदना और अन्यान्य समस्त

नेत्ररोग दूर होते हैं । इसको सात दिनतक सेवन
करनेसे अन्धा मनुष्य भी देखने लगता है ३०७ ॥ ३०८

कृष्णापथ्ये क्रमाद्वृद्धे भृङ्गराजरस-
प्लुते । छायाशुष्के हते सद्यस्तिमि-
रं वापि योजिते ॥ ३०९ ॥

पीपल १ भाग और हरड २ भाग लेकर दानाके
चूर्णको एकत्र भांगरेके रसमें भावना देकर छायामें
सुखालेवे । उसको नेत्रोंमें आंजनेसे तिमिर रोग
तत्काल दूर होता है ॥ ३०९ ॥

भास्करवर्ति ।

त्रिंशद्भागन्तु नागस्य गन्धपाषाणप-
ञ्चकम् । शुल्वतालकयोर्द्वौ द्वौ वङ्ग-
स्यैकोऽञ्जनत्रयम् ॥ ३१० ॥ अंध-
मूषागतं धमातं पक्वं विमलमञ्जनम् ।
तिमिरान्तककृच्छोके द्वितीयो भा-
स्करो यथा ॥ ३११ ॥

सीसा ३० भाग, गन्धक ५ भाग, ताँबा २ भाग,
हरताल २ भाग, वग १ भाग और अंजन ३ भाग
इन सबको एकत्र करके अन्धमूषा यंत्रमें रख कर
फूंकदेवे तो निर्मल अञ्जन तैयार होता है। इस अञ्ज-
नको नेत्रोंमें लगानेसे सर्वप्रकारका तिमिररोग दूर
होता है । यह संसारमें तिमिरको दूर करनेके लिये
दूसरे सूर्यके समान है ॥ ३१० ॥ ३११ ॥

सलिलमकरन्दसर्पिस्तैलैः प्रत्येकम-
स्तु सप्ताहम् । विनिहन्ति तिमिरम-
चिरादंजनतश्चन्दनं रक्तम् ॥ ३१२ ॥

लालचन्दनको जल, गृहद, बी अथवा तेलमें घिस
कर नेत्रोंमें लगानेसे बहुत दिनोका पुराना तिमिररोग
एक सप्ताहमें दूर हाजाता है ॥ ३१२ ॥

अन्धसुदर्शक अञ्जन ।

कृष्णसर्पं मृतं न्यस्य चतुरश्रापि वृ-
श्चिकान् । क्षीरकुम्भे त्रिसप्ताहं क्लेद-
यित्वा प्रमन्थयेत् ॥ ३१३ ॥ तत्र
यत्रवनीतं स्यात्पुष्णीयात्तेन कुक्कुट-
म् । अन्धस्तस्य पुरीषेण पश्यति
ध्रुवमञ्जनात् ॥ ३१४ ॥

एक मरेहुए काले साँपको और चार विच्छुओंको एकत्र दूधके घडेमे डालकर, खूब अच्छे प्रकारसे चला कर तीन सप्ताह तक रखकर मथे । फिर उसमेंसे जो नवनीत निकले वह एक मुरगेको खिलोदेव। उस मुरगेकी विष्ठाको लेकर नेत्रोमे लगानेसे अन्धा मनुष्य भी निःसन्देह देखने लगता है ॥ ३१३ ॥ ३१४ ॥

सुखावतीवर्ति ।

कतकस्य फलं शङ्खं त्र्यूषणं सैन्धवं
सिता । फेनो रसाञ्जनं क्षौद्रं विड-
ङ्गानि मनःशिला ॥ ३१५ ॥ कुक्कु-
टाण्डकपालानि वर्तिरेषा व्यपोह-
ति । तिमिरं पटलं काचमर्मशुक्रं
सुखावती ॥ ३१६ ॥

निर्मलीके फल, शङ्ख, त्रिकुटा, सैधानमक, मिश्री, समुद्रफेन, रसात, शहद, वायविडङ्ग, मैनशिल और मुरगेके अण्डेका बकल—इन सबको एकत्र पीसकर बत्ती बनालेवे । इन बत्तियोंको नेत्रोमे लगानेसे—तिमिर, पटल, काच, अर्म और नेत्रका फूल दूर होता है ॥ ३१५ ॥ ३१६ ॥

शाणार्द्धं मरिचं द्वौ च पिप्पल्यर्णव-
फेनयोः । शाणार्द्धं सैन्धवाच्छाणा-
त्सौवीरस्य जलिन च ॥ ३१७ ॥ पिष्टं
सुसूक्ष्मं चित्रायां चूर्णाञ्जनमिदं शु-
भम् । काचकंडूकफार्त्तानां मलानाञ्च
विशोधनम् ॥ ३१८ ॥

कालीमिरच २ माशे, पीपल और समुद्रफेन प्रत्येक दोदो माशे और सैधानमक २ माशे इन सबको एकत्र चार माशे सौवीरनामक काँजीके साथ चित्रानक्षत्रमे वारीक पीसलेवे । यह चूर्णाजन—काच, कण्डू, कफ और नेत्रके मलोंको गुद्द करनेके लिए अत्युत्तम है ॥ ३१७ ॥ ३१८ ॥

कृष्णसर्पवसाक्षौद्रं रसो धात्र्या रस-
क्रिया । शस्ता सर्वाक्षिरोगेषु वैदेह-
पतिनिर्मिता ॥ ३१९ ॥

काले साँपकी चर्दी, शहद और आमलोंका रस इनको एकत्र मिलाकर रसक्रिया बनाकर आंजनेसे सगर्ण प्रकारके नेत्ररोग दूर होते हैं ॥ ३१९ ॥

मुक्तादिमहाञ्जन ।

मुक्ताकर्षकाचागुरुमरिचकणासैन्ध-
वैलाप्रवाला—शुण्ठी—कड्डोलकां-
स्यत्रपुरजनिशिलाशङ्खनाभ्यभ्रतुत्थ-
म् । दक्षाण्डत्वक् च साक्षक्षतजयुत-
शिवाक्रीतकं राजवर्त्त, जातीपुष्पं-
तुलस्याः कुसुममभिनवं बीजमस्या-
स्तथैव ॥ ३२० ॥ पूतीकनिम्वाञ्जन-
भद्रमुस्तं सताम्रसारं रसगर्भयुक्तम् ।
प्रत्येकमेषां खलु माषकैकं पाषाणपिष्टं
मधुना च सूक्ष्मम् ॥ ३२१ ॥ भवन्ति
रोगा नयनाश्रिता ये नितान्तमात्रो-
पचिताश्च तेषाम् । विधीयते शा-
न्तिरवश्यमेव मुक्तादिनानेन महाञ्ज-
नेन ॥ ३२२ ॥

मोती, कपूर, कांच, अगर, कालीमिरच, पीपल, सैधानमक, इलायची, मूंगा, सोठ, कंकोल, कांसा, सीसा, हलदी, मैनशिल, शंखनाभि, अभ्रक, तृतिया, मुरगेके अण्डेका बकल, वहेडा, केशर, हरद, मुलैठी, रेवटी, चमेलीके फूल, तुलसीकी नवीन मंजरी और बीज, पूतिकरज, नीम, अंजन, नागरमोथा, लाल चदन और रसात यह प्रत्येक औषधि एक २ माशा लेकर सबको एकत्र शहदमे मिला कर पत्थरके ऊपर वारीक पीस लेवे । इस अञ्जनको नेत्रोमे लगानेसे समस्त नेत्ररोग अवश्य दूर होते हैं ॥ ३२० ॥ ३२१ ॥ ३२२ ॥

चन्द्रोदयादिवर्ति ।

हरीतकी वचाकुष्ठं पिप्पलीमरिचा-
नि च । विभीतकस्य मज्जा च शंख-
नाभिर्मनःशिला ॥ ३२३ ॥ सर्वमे-
तत्समं कृत्वा त्वजाक्षीरेण पेषयेत् ।
नाशयेत्तिमिरं कंडू पटलान्यर्बुदानि

च ॥ ३२४ ॥ अधिकानि च मांसानि
यश्च रात्रौ न पश्यति । अपि द्विवा-
र्षिकं पुष्पं मासेनैकेन शाम्यति ॥
वर्तिश्चन्द्रोदया नाम वृणां दृष्टि-
विशोधिनी ॥ ३२५ ॥

हरड, वच, कूठ, पीपल, कालीमिरच, वहेडेकी
मजा, शंखनाभि और मैतशिल इन सबको समान
भाग लेकर बकरीके दूधमें पीस लेवे । इसको नेत्रोंमें
लगानेसे तिमिर, कण्डू, पटल, अर्बुद, मांसाधिक्य
और रात्रांधता ये सब रोग नष्ट होते हैं । इससे दो
वर्षका फूला भी एक महीनेमें दूर हो जाता है । यह
चन्द्रोदयनामक वर्ती मनुष्योंकी दृष्टिको शुद्ध करती
है ॥ ३२३ ॥ ३२४ ॥ ३२५ ॥

हरीतक्यादिवर्ति ।

हरीतकी हरिद्रा च पिप्पली लव-
णानि च । कंडूतिमिरजिद्वर्तिर्न क-
चित्प्रतिहन्यते ॥ ३२६ ॥

हरड, हलदी, पीपल और सैधानमक इनको एकत्र
पीसकर बत्ती बनाकर नेत्रोंमें लगानेसे कण्डू और
तिमिरादि रोग दूर होते हैं ॥ ३२६ ॥

त्रिफलादिवर्ति ।

त्रिफलाक्लुकुटाण्डत्वक्काशीशमय-
सो रजः । नलोत्पलं विडङ्गानि फे-
नश्च सरितांपतेः ॥ ३२७ ॥ आज्ञेन
पयसा पिष्ट्वा भावयेत्ताम्रभाजने ।
सप्तरात्रं स्थितं भूयः पिष्ट्वा क्षीरेण
वर्तयेत् । एषा दृष्टिप्रदा वर्तिरन्ध-
स्याभिन्नचक्षुषः ॥ ३२८ ॥

त्रिफला, मुरगीके अण्डेका बकल, कर्मास, लोह-
चूर्ण, नीला कमल, वायविडंग और समुद्रफेन इन
सबको एकत्र बकरीके दूधमें पीसकर तावेके पात्रमें
सात दिनतक भावना देवे । पश्चात् सूखनेपर दूधमें
पीसकर बत्ती बना लेवे । इन दृष्टिप्रद वर्तियोंको
नेत्रोंमें लगानेसे अधमनुष्योंके भी नेत्र नवीन होजाते
हैं ॥ ३२७ ॥ ३२८ ॥

शङ्खादिवटी ।

शङ्खस्य भागाश्चत्वारस्ततोऽर्द्धेन मनः-
शिला । मनःशिलार्द्धं मरिचं मरि-
चार्द्धेन सैन्धवम् ॥ ३२९ ॥ वारिणा
तिमिरं हन्ति चार्बुदं हन्ति मस्तुना ।
पिच्चटं मधुना हन्ति स्त्रीक्षीरेण तथा-
र्जुनम् ॥ ३३० ॥

शंख ४ भाग, मैतशिल २ भाग, कालीमिरच १
भाग और सैधानमक आधा भाग लेवे । इनको
एकत्र जलमें पीसकर नेत्रोंमें लगानेसे तिमिर रोग
दूर होता है । दर्हीके पानीमें पीसकर नेत्रोंमें लगाने-
से अर्बुदरोग नष्ट होता है । शहदमें पीसकर लगानेसे
पिच्चटरोग और स्त्रीके दूधमें पीसकर नेत्रोंमें
लगानेसे अर्जुनरोग दूर होता है ॥ ३२९ ॥ ३३० ॥

कतकं चन्दनं लाक्षां मधुकं मरिचो-
त्पलम् । तुत्थाक्षामलकाबीजं मनो-
ह्लासुमनासिताः ॥ ३३१ ॥ विडङ्गो-
दधिकेनैलाशङ्खनाभिरसाञ्जनम् ।
एषा दृष्टिप्रदा नाम्ना वर्तिर्वैद्येन नि-
र्मिता ॥ ३३२ ॥ नित्योपयोगात्पट-
लं तिमिरं शुक्रराजिकाम् । शुक्रं
शुक्राक्षिरोगश्च विवृद्धं वाऽर्म एव
च ॥ निहन्ति सहसा रोगान्त्रिदो-
षानपि दुस्तरान् ॥ ३३३ ॥

निर्मलीके फल, चंदन, लाख, गुलैठी, काली-
मिरच, कमल, तूतिया, वहेडेके बीज, आमलेके बी-
ज, मैतशिल, चमेली, मिश्री, वायविडंग, समुद्रफेन,
इलायची, शंखनाभि और रसैत इन सबको एकत्र
पीसकर वैद्य बत्ती बना लेवे । ये बत्तिया नित्य नेत्रोंमें
लगानेसे पटल, तिमिर, शुक्रराजिका, शुक्र, शुक्राक्षि
रोग, विवृद्ध, अर्म और त्रिदोषजनित दुस्तररोग-
को एक साथ दूर करदेती है ॥ ३३१ - ३३३ ॥

कुसुमिकावर्ति ।

अशीतिस्तिलपुष्पाणि षष्टिर्मागधि-
तण्डुलाः । जातीकुसुमपञ्चाशन्मरि-

चानि च षोडश । एषा कुलुमिकाव-
र्त्तिर्गतं चक्षुर्निवर्त्तयेत् ॥ ३३४ ॥

तिलके फूल ८०, पीपलके चावल ६०,
चमेलीके फूल ५० और कालीमिरच १६ लेवे ।
इन सबको एकत्र पीसकर नेत्रोमे लगानेसे नष्ट हुए
नेत्र भी फिरसे नवीन होजाते हैं ॥ ३३४ ॥

चन्दनादिवर्ति ।

चन्दनत्रिफलापूगपलाशतरुशोणि-
तैः । जलपिष्टैरियं वर्त्तिरशेषतिमि-
रापहा ॥ ३३५ ॥

चन्दन, त्रिफला, सुपारी और ढाकके अक्षुर
इनको जलमें पीसकर बत्ती बनालेवे । इस बत्तीको
नेत्रोमे लगानेसे सर्वप्रकारका तिमिररोग दूर होता
है ॥ ३३५ ॥

व्योषादिवर्ति ।

व्योषोत्पलाभयाकुष्ठताक्षर्यैर्वर्तिः कृ-
ता हरेत् । अर्बुदं पटलं काचं तिमि-
राम्मर्मासुनिष्ठितिम् ॥ ३३६ ॥

त्रिकुटा, कमल, हरड, कूठ और रसौत इनकी
बत्ती बनाकर नेत्रोमे लगानेसे अर्बुद, पटल, काच,
तिमिर, अर्म और आसुओंका स्राव ये सब दूर होते
हैं ॥ ३३६ ॥

नागार्जुनाञ्जन ।

त्रिफलाव्योषसिन्धूत्थयष्टीतुत्थरसा-
ञ्जनम् । प्रपौण्डरीकं जन्तुघ्नं लोघ्नं
ताम्रं चतुर्दश ॥ ३३७ ॥ द्रव्याण्ये-
तानि संचूर्ण्य वर्त्तिः कार्या नभो-
ऽम्बुना । नागार्जुनेन लिखिता स्तम्भे
पाटलिपुत्रके ॥ ३३८ ॥ नाशिनी ति-
मिराणाञ्च पटलानां तथैव च । स-
द्यः कोपञ्च स्तन्येन स्त्रिया विजयते
ध्रुवम् ॥ ३३९ ॥ किंशुकस्वरसेनाथ
पिल्लपुष्पकरक्ता । अञ्जनाल्लोघ्नतो-
येन आसत्रातिमिरं जयेत् ॥ ३४० ॥

ग्विरसंछादिते नेत्रे वस्तमूत्रेण सं-
युता । उन्मूलयति कृच्छ्रेण प्रसादं
वाधिगच्छति ॥ ३४१ ॥

त्रिफला, त्रिकुटा, सैधानमक, मुलैठी, तूतिया,
रसौत, पुडेरिया, वायविडंग, लोध और तौवा इन
चौदह औषधियोंको समान भाग लेकर मेघके जलमे
बत्ती बनालेवे ॥ इस बत्तीको स्त्रीके दूधमे पीसकर
लगानेसे तिमिर और पटलरोग एवं नेत्रका प्रकोप
तत्काल शांत होजाता है । टेसूके फूलोंके रसमे मिला
कर लगानेसे पिल्लरोग, नेत्रका फूला और लाली दूर
होती है, लोधके रस या काथमे मिलाकर लगानेसे
तत्काल तिमिररोग दूर होता है । बकराके मूत्रमे
धिसकर लगानेसे चिरकालसे ढकेहुए नेत्र खुलजाते
हैं अथवा जो कठिनतासे खुले वे अच्छे प्रकारसे
खुलने लगते हैं । यह बत्ती नागार्जुन सिद्धने पाटलि-
पुत्र (पटना) के म्त्म्भेम लिखी है ॥ ३३७-३४१ ॥

शशचर्मगर्भमषी ।

वर्त्यार्कितूलैः कृतया सशशं चर्मग-
र्भया । प्रदीप्तया मषी ग्राह्या सर्वने-
त्रामयांतकी ॥ ३४२ ॥

खरगोशके चमडेको लेकर उसके ऊपर आककी
रई लपेटकर बत्ती बनालेवे उस बत्तीको जलानेसे
जो स्याही हो उसको ग्रहण करके नेत्रोमे लगावे । इस-
से सर्वप्रकारके नेत्ररोग दूर होते हैं ॥ ३४२ ॥

त्रपुगैरिककर्पूरयष्टीनीलोत्पलाञ्जन-
म् । नागकेशरसंयुक्तमशेषतिमिरा-
न्तकृत ॥ ३४३ ॥

सीसा, गेरू, कपूर, मुलैठी, नीलकमल, अजन
और नागकेशर इनको एकत्र पीसकर नेत्रोमे अञ्जेने-
से सर्वप्रकारका तिमिररोग दूर होता है ॥ ३४३ ॥

शतावर्यादिचूर्णाञ्जन ।

शतावरी सूर्यसमा प्रदेया एला त-
था वारणमूर्द्धतुल्या । देयं विडङ्गं
वसुभिः समानभृतोः समं चामल-

कास्थिवीजम् ॥ ३४४ ॥ विष्णोर्भुजै-
स्तुल्यगुणं मरीचं तद्विक्रमैर्मागधि-
का प्रदेया । चूर्णं समध्वाञ्जनकर्ष-
मर्द्धमक्षामयानां विनिवारणार्थम् ॥
॥ ३४५ ॥ कंडूं सधूमं तिमिरं सुघोर-
मर्माणिकाचं पटलं त्रिदोषम् । ये
चापरे रक्तभवा विकारास्तांश्राम-
यांश्चूर्णवरो निहन्ता ॥ ३४६ ॥

शतावर १२ भाग, डलायची २१ भाग, वायवि-
डंग ८ भाग, आमलेके बीज ६ भाग, कालीमिरच
४ भाग और पीपल ३ भाग तथा शहद ६ मासे
और अंजन ६ मासे लेवे । सबको एकत्र चूर्ण करके
नेत्रोंमें आंजे । यह चूर्ण-कण्डू, धूम्र, घोर तिमिररोग,
अर्म, काच, त्रिदोषजपटल और अन्यान्य रुधिरज-
न्य समस्त नेत्ररोगोंको दूर करता है ॥ ३४४ ॥
३४५ ॥ ३४६ ॥

नयनामृताञ्जन ।

• रसेन्द्रभुजगौ तुल्यौ ताभ्यां तुल्य-
मथाञ्जनम् । ईषत्कर्पूरसंयुक्तमञ्जनं न-
यनामृतम् ॥ ३४७ ॥

पारा और सीसा ये प्रत्येक एक एक भाग और
दोनोंके बराबर अंजन लेवे और इनमें कुछ एक कपूर
मिलाकर सबको एकत्र पीसकरके नेत्रोंमें आंजे तो
समस्त नेत्ररोग दूर होते हैं ॥ ३४७ ॥

मनःशिलादि अञ्जन ।

मनोह्यातुथकस्तूरीभांसीमलयनाग-
रम् । समांशं शङ्खकर्पूरमशीतिगुण-
मञ्जनम् ॥ एतच्चूर्णीकृतं सर्वं षड्विधे
तिमिरे हितम् ॥ ३४८ ॥

मैनशिल, तूतिया, कस्तूरी, वालछड, चन्दन,
सोंठ, शख और कपूर ये सब औषधि दशदश भाग
लेवे, सबको एकत्र पीसकर नेत्रोंमें लगावे तो छः
प्रकारका तिमिररोग दूर होता है ॥ ३४८ ॥

कृष्णसर्पवदने सहविष्कं दग्धमञ्ज-
नमनिर्गतधूमम् । चूर्णितं नलदपत्र-

विमिश्रं भिन्नसारमपि रक्षति च-
क्षुः ॥ ३४९ ॥

काले सोंपके मुखमें अंजनको घीमें पीसकर भर
देवे फिर उसके ऊपर कपरौटी करके पुटपाककी
विधिसे पकावे पश्चात् उसको चूर्ण करके वालछडका
चूर्ण मिलाकर नेत्रोंमें लगानेसे फटतीहुई आंखें भी
आरोग्य हो जाती हैं ॥ ३४९ ॥

च्युषणं त्रिफलाच्युक्रसैन्धवालमनः-
शिला । क्लेदोष्णदाहकण्डूना वर्तिः
शस्ता कफापहा ॥ ३५० ॥

सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, तगर,
सैधानमक, हरताल और मैनशिल इनको एकत्र पीस-
कर बत्ती बनाकर नेत्रोंमें लगानेसे क्लेद, उष्णता, दाह
और कण्डू ये सब नष्ट होजाते हैं यह बत्ती विशेष-
कर कफको करती है ॥ ३५० ॥

सौवीरमञ्जनं नित्यं पथ्यमक्ष्णोस्त-
तो भजेत् । पञ्चरात्राष्टरात्रं वा स्ना-
वणार्थं रसाञ्जनम् ॥ चक्षुस्तेजोभयं
तेन भवेन्न श्लेष्मतो भयम् ॥ ३५१ ॥

सौवीराञ्जन अर्थात् काला सुर्मा नेत्रोंको सदैव
हितकारी है, इसकारण उसको नित्य व्यवहार करना
चाहिये । नेत्रोंका स्नाव होनेके लिये पाँच रात्रि पर्यन्त
अथवा आठ रात्रिपर्यन्त रसौतको लगावे इससे नेत्रों-
की ज्योति बढती है और कफका भय नहीं रहता
॥ ३५१ ॥

सूतकं गन्धकोपेतं चाङ्गेरीरसमूर्च्छि-
तम् । अंजनं दृष्टिदं नृणां नेत्रामय-
विनाशनम् ॥ ३५२ ॥

पारे और गधकको चांगेरी (नोनिया) के रसमें
मूर्च्छित करके एकत्र खरल कर नेत्रोंमें आंजनेसे
नेत्रोंकी दृष्टि बढती है और नेत्रोंके समस्त रोग दूर
होते हैं ॥ ३५२ ॥

त्रिफलाभृङ्गमहौषध-सर्पिर्गोमूत्रमध्व-
जाक्षीरे । नागं सप्तनिषिक्तं करोति
गरुडोपमं चक्षुः ॥ ३५३ ॥

सीसेको अग्निके द्वारा गलाकर त्रिफलेके रसमें, भांगरेके रसमें, सोठके काथमें, घामे, गोमूत्रमें, जहदमें और वकरीके दूधमें अलग अलग सात सात बार बुझाकर उसकी सलाई बनाकर अथवा अंजन घिसकर नेत्रोंमें लगानेसे नेत्र गरुडके समान तेज होजाते हैं ॥ ३५३ ॥

त्रिफलाम्भसि भृङ्गरसे च हविषि मधुन्यजादुग्धे च पक्केन सप्तकृत्वः शीसेनोत्पादितयाजनं कार्यं प्रत्यहमंजनतश्चक्षुषोर्जिताशेषरोगेण वर्षायामपि पश्येत्पिपीलिकावृष्टमयनमिति ।

सीसेको अग्निके द्वारा तपाकर या गलाकर त्रिफलेके रसमें, भांगरेके रसमें, घामे, जहदमें और वकरीके दूधमें अलग अलग सात सात बार बुझाकर अंजन बनाकर प्रतिदिन नेत्रोंमें लगानेसे नेत्रोंके सम्पूर्ण दोष दूर होकर नेत्र स्वच्छ होजाते हैं तथा वर्षाऋतुमें चोटियोंके घिसनेसे उत्पन्न हुए स्थानोंको भी देखसकता है ।

शीशकशलाका ।

त्रिफलसालिलयोगे भृङ्गराजद्रवे च हविषि च विषकल्के क्षीर आज्ञे मधूरे ॥ प्रतिपद्मभित्तं सप्तधा शीतमेकं प्रणिहितगति पश्चात्कारयेत्तच्छलाकाम् ॥ ३५४ ॥ तिमिरपटलकण्डूस्त्रावरक्तप्रकोषानुपचितबहुरोगान्सान्धिवर्त्माभिजातान् । सविस्तुरुदयकाले सांजना व्यंजना वा हरति नयनरोगाञ्छोध्यमाना शकाला ॥ ३५५ ॥

सीसेको अग्निके तपा तपाकर प्रथम त्रिफलेके रसमें सातवार बुझावे, फिर भांगरेके रसमें घामे, कमलकन्दके कल्कमें, वकरीके दूधमें और फिर जहदमें सात सातवार भावना देवे इसप्रकार उक्त औषधियोंके रसमें भावना देनेके पाश्चात्

सीसेकी सलाई बनालेवे उस सलाईको सूर्योदयके समय अंजनके साथ अथवा खाली लगानेसे तिमिर पटल, कण्डू, नेत्रस्त्राव, रक्तप्रकोष, विविधप्रकारके संधिगत और वर्त्मजरोग एव अन्यान्य अनेकप्रकारके नेत्ररोग दूर तथा नेत्र शुद्ध होते हैं ॥ ३५४ ॥ ३५५ ॥

शृङ्गवेरं भृङ्गराजं यष्टीतैलेन मिश्रितम् । नस्यमेतेन दातव्यं महापटलनाशनम् ॥ ३५६ ॥

अदरख, भांगरा, मुलैठी और तिलका तेल इनको एकत्र मिलाकर नास देनेसे महापटलरोग दूर होता है ॥ ३५६ ॥

पिण्डीततरुमूलन्तु क्षौद्रेण सह योजयेत् ॥ अपक्वं पटलं हन्यात्पक्वश्च परिशोधयेत् ॥ ३५७ ॥

भैनफलकी जड़को जहदमें मिलाकर नेत्रोंमें लगानेसे अपक्वपटलरोग दूर होता है और पक्वपटल शुद्ध होता है ॥ ३५७ ॥

दिवा तु न प्रयोक्तव्यं नेत्रयोस्तीक्ष्णमञ्जनम् । विरेकदुर्बलादृष्टिरादित्यं प्राप्य सीदति ॥ ३५८ ॥

तीक्ष्ण अंजन नेत्रोंमें दिनमें नहीं लगाना चाहिये, क्योंकि दिनमें तीक्ष्ण अंजन लगानेसे नेत्रोंमेंसे जलका स्त्राव होनेके कारण दृष्टि दुर्बल होकर सूर्यके तापसे विह्वल हो जाती है ॥ ३५८ ॥

तस्मात्साध्यं निशयान्तु ध्रुवमञ्जनमिष्यते । रात्र्यन्धगुणितं चापि पुष्णात्यञ्जनकार्षितम् ॥ ३५९ ॥

इस कारण तीक्ष्ण अंजन रात्रिमें लगाना चाहिये, क्योंकि वह अंजन अपकर्षण करनेसे नेत्रोंको पुष्ट करता है एवं रतौधेमें गुण करता है ॥ ३५९ ॥

दोषप्रतिनिवृत्तस्तु हन्याद्दृष्टिबलं तथा । अधावनाद्दहिस्तिष्ठन्भूयः सञ्जनयेद्भयम् ॥ ३६० ॥

दोषोंके निवृत्त होनेपर भी नेत्रोंको न बोनसे बाहर स्थित दोष भयको उत्पन्न करके फिर दृष्टिके बलको नष्ट कर देते हैं ॥ ३६० ॥

श्रान्ते भीते प्ररुदिते मद्यपीते नव-
ज्वरे । उष्णवेगविघाते च अञ्जनं न
प्रशस्यते ॥ ३६१ ॥

थक जानेपर, भयभीत होनेपर, रोनेपर, मद्यपान
करनेपर, नवीनज्वरमें, गरमीसे सन्तप्त और मलमू-
त्रादिक वेगोके रोकने पर अंजन नहीं लगाना चाहिये
॥ ३६१ ॥

वैमल्यार्थं यथादर्शं सतैलमवधार-
णम् । तद्वदञ्जनसंयोगादक्ष्णोर्मलनि-
वर्हणम् ॥ ३६२ ॥

जिसप्रकार सीसेको तेल लगाकर देखनेसे स्वच्छ
दीखता है, उसीप्रकार नेत्रोंमें अञ्जन लगानेसे नेत्रोंके
मल दूर होकर नेत्र स्वच्छ हो जाते हैं ॥ ३६२ ॥

प्रसन्नविमला शुद्धा स्थिरा दृष्टिर्भवे-
दतः । प्रातः कुर्यात्सदैवैतदञ्जनं
व्याधिनाशनम् ॥ ३६३ ॥

नेत्रोंमें अंजन लगानेसे दृष्टि प्रसन्न, निर्मल, स्वच्छ
और स्थिर होती है तथा सर्वप्रकारके नेत्ररोग दूर होते
हैं, इस लिए प्रातःकाल सदैव अञ्जन लगाना चाहिए
॥ ३६३ ॥

अथ नेत्रनिर्माणप्रकार ।

पुत्रिणीलिङ्गिनीलिङ्गं तन्नाशो लि-
ङ्गनाशनः । सर्वेषु लिङ्गनाशेषु वेध्य
एकः कफात्मकः ॥ ३६४ ॥

लिंगयुक्त नेत्रोंकी पुतलीमें जो लिंग है उसके नाश
होनेको लिंगनाश कहते हैं । हिन्दीमें इसे मोतिया-
बिन्द कहते हैं सर्वप्रकारके लिंगनाशोंमें एक कफज-
न्यलिंगनाशको ही शस्त्रसे चीरना चाहिये ॥ ३६४ ॥

एकोनविंशतिवर्षस्य नाशित्यभ्याधि-
कस्य च । नाश्रुपूर्णस्य नोष्णे च लि-
ङ्गनाशन्तु वेधयेत् ॥ ३६५ ॥

उन्नीस वर्षसे कम अवस्थावाले और अस्सी वर्षसे
अधिक अवस्थावाले मनुष्योंके तथा अश्रुओंसे पूर्णने-
त्रोंवाले और उष्णतापीडित मनुष्योंके लिंगनाशको
नहीं वेधे ॥ ३६५ ॥

कासश्वास-क्षतक्षीणकर्णशलाक्षिरो-
गिणाम् । गर्भिणीक्षामभीरूणां तृ-

ष्णाभुक्तवतोऽन्यथा ॥ ३६६ ॥ मद्य-
तैलज्वराजीर्णक्षयशुक्र-विकारिणा-
म् । पटोलाद्येन संस्त्रिह्य त्रिफलाद्ये-
न सर्पिषा ॥ ३६७ ॥ लिङ्गनाशो स-
मुद्भूते यथावद्विधिपूर्वकम् । विध्या-
दैवकृते छिद्रे नेत्रं स्तन्येन सेचये-
त् ॥ ३६८ ॥

खाँसी, श्वास, क्षत, क्षीण, कर्णशूल और नेत्ररोग-
वाले मनुष्य तथा गर्भवती स्त्री, असमर्थ, भयभीत,
तृषा और क्षुधासे पीडित, एवं मद्यपान किये हुए, तेल
लगाये हुए, ज्वर और अजीर्णसे पीडित, क्षय और
शुक्ररोगी मनुष्योंके लिंगनाशको भी नहीं वेधना
चाहिये । प्रथम पटोलाद्य घृत अथवा त्रिफलाद्यघृतके
द्वारा रोगीको स्निग्ध करके पश्चात् लिंगनाशरोगमें
उत्पन्न हुए दैवकृत छिद्रको विधिपूर्वक वेधे तथा नेत्रों-
को तत्काल दूधसे सींचे ॥ ३६६-३६८ ॥

ततो दृष्टेषु रूपेषु शलाकापहरेच्छ-
नैः । नयनं सर्पिषाभ्यज्य वस्त्रपट्टेन
वेष्टयेत् ॥ ३६९ ॥ ततो गृहे निरा-
बाधे शयीतोत्तानमेव च ॥ ६७० ॥
उद्गारकासः क्षवथुः पृथिवीं कम्पना-
नि च । तत्कालं नाचरेदूर्ध्वं यन्त्रणा-
स्नेहपतिवत् ॥ ३७१ ॥ त्र्यहातत्र्य-
हाच्च धावेत् कषायैरनिलापहेः ।
वायोर्भयात्त्र्यहादूर्ध्वं स्नेहयेदक्षिपूर्व-
वत् ॥ ३७२ ॥ दशरात्रस्थितं सम्य-
ग्घृतं दृष्टिप्रसाधनम् । पश्चात्कर्म च
संसेव्यं लघ्वन्नं चापि मात्रया ॥ ३७३ ॥

फिर जब स्वरूप दीखने लगे तब धीरे-सलईको
निकालदेवे और नेत्रोंको घृत चुपडकर वस्त्रसे बांध-
देवे फिर उस रोगीको धूम, धूप और वातरहित स्था-
नमें सीधा सुला देवे । इस प्रकार नेत्रवेध होनेपर रो-
गीको तत्काल उद्गार लेना (डकारना), खाँसना,
छींकना, थूकना, कांपना आदि क्रियायें नहीं करनी
चाहिए । कारण इनके द्वारा नेत्रोंमें पीडा होती है ।
उसको स्नेहपान करनेवालेके समान रहना चाहिए ।
तीन २ दिनके बाद नेत्रोंके वेधन खोलकर वात-

नाशक औपधियोंके काथसे नेत्रोको धोवे । वायुके भयसे तीन ३ दिनमे स्नेहसे नेत्रोको पूरण करे, इस प्रकार करते हुए जब दशदिन व्यतीत होजाय तब दृष्टिप्रसारणक्रिया और हलका अन्न आदि मात्रानुसार देवे ॥ ३६९ ॥ ३७० ॥ ३७१ ॥ ३७२ ॥ ३७३ ॥

**रागः शोथोऽर्बुदश्चोषं बुद्बुदं केकरा-
क्षिता । अधिमन्थादयश्चान्ये रोगाः
स्युर्दुष्टवेधजाः ॥ ३७४ ॥**

कृविधिसे नेत्रोको वेधनेसे नेत्रोमे लाली, सूजन, अर्बुद, चूसने सराखी पीडा, बुद्बुद, केकडेके समान नेत्रोंका होना और अधिमन्थादि घोर रोग उत्पन्न होते है ॥ ३७४ ॥

**अहिताचारतो वापि यथास्वन्तानु-
पाचरेत् । रुजायामक्षिरोगे वा भूयो
योगान्निबोध मे ॥ ३७५ ॥**

इन रोगोंकी विविधपूर्वक चिकित्सा करे और इनमे मिथ्या आहार विहार करना त्याग करदेवे, क्योंकि मिथ्या आचरण करनेसे भी यह रोग उत्पन्न होतेहै। अब इन नेत्ररोगोंकी चिकित्सा कहते है ॥ ३७५ ॥

**सद्गुधा सघृता दूर्वा यवगौरिकशा-
रिवाः । सुखालेपः प्रयोक्तव्यो रुजा-
रागोपशान्तये ॥ ३७६ ॥**

दूब, जौ, गेरू और शारिवा इनको दूध और घीमे पीसकर सुखोष्ण लेप करनेसे नेत्रोंकी लाली और पीडा शांत होती है ॥ ३७६ ॥

**पयस्या-शारिवापत्रैर्मञ्जिष्ठामधुकैर-
पि । अजाक्षीरान्वितैर्लेपः सुखोष्णः
पथ्य उच्यते ॥ ३७७ ॥**

क्षीरकाकोली अथवा दुद्धी, शारिवा, तेजपत्र, मजीठ और मुलैठी इनको एकत्र वकरीके दूधमें पीसकर कुछ गरम करके नेत्रोमे लेप करना हितकर है ॥ ३७७ ॥

**लोध्रसैन्धवमृद्धीकामधुकैश्छागलं प-
यः । शृतामाश्च्योतने पथ्यं रुजारो-
गविनाशनम् ॥ ३७८ ॥**

लोध्र, सैधानमक, दाख और मुलैठी इनका एकत्र वकरीके दूधमें औटाकर उस दूधको शीतल करके नेत्रोमें आश्च्योतन करे तो नेत्रोंकी पीडा दूर होती है ॥ ३७८ ॥

**वातघ्नसिद्धे पयासि सिद्धं सर्पिश्चतु-
र्गुणे । काकोल्यादिप्रतीवापं प्रयु-
ज्यात्सर्वकर्ममु ॥ ३७९ ॥**

वातनाशक औपधियोंके द्वारा सिद्ध किये हुए चौगुने दूधमे काकोल्यादि गणकी औपधियोंका कल्क डालकर घृतको पकावे । इस घृतको नस्य पानादि सर्व कर्मोंमे प्रयोग करे । इससे सर्वप्रकारकी नेत्रपीडा शांत होती है ॥ ३७९ ॥

**शाम्यत्येवं न चेच्छूलं सिग्धस्विन्न-
स्य मोक्षयेत् । ततः शिरां देहेद्वा-
पि मतिमान्कीर्त्तितं तथा ॥ ३८० ॥
दृष्टेरतः प्रसादार्थमंजनं शृणु मे शु-
भम् । मेषशृङ्गस्य पुष्पाणि शिरीष-
धवयोरपि । मालत्याश्चैव तुल्यानि
मुक्तावैडूर्यमेव च ॥ ३८१ ॥ अजा-
क्षीरेण संपिप्य ताम्रे सप्ताहमावपेत् ।
प्रणिधाय च तद्वृत्तिं योजयेदंजने
भिषक् ॥ ३८२ ॥**

जो इसप्रकार करनेसे भी नेत्रशूल शांत न हो तो रोगीको स्निग्ध और स्वेदित करके रक्तमोक्षण करे अथवा शिरा वेधे या दग्ध करे । अब दृष्टिको परिष्कार करनेके लिए अञ्जन कहता हूँ उसको श्रवण करो । मेढाशिगीके फूल, शिरसके फूल, धवके फूल और चमेलिके फूल तथा मोती और वैडूर्यमणि इन सबको समान भाग लेकर एकत्र वकरीके दूधमें पीसकर तांबेके पात्रमे सात दिन तक रक्खा रहनेदेवे फिर वैद्य उसकी वत्ती बनाकर नेत्रोमे आञ्जे तो नेत्रोंकी समस्त पीडा शांत होती है ॥ ३८०-३८२ ॥

**स्रोतोर्जं विद्रुमं फेनं सागरस्य जनः-
शिला । मरिचानि च तावन्ति
कारयेद्वापि पूर्ववत् ॥ ३८३ ॥**

सफेद अंजन, मूंगा, समुद्रफेन, मैतिलि और कालीमिरच इन सबको समान भाग लेकर एकत्र बकरीके दूधमें पीसकर और सात दिनतक, ताँबेके पात्रमें रखकर पूर्ववत् वत्ती बनाकरके पूर्ववत् नेत्रोमें लगावे इससे भी नेत्रोंकी समस्त पीडा दूर होती है ॥ ३८३ ॥

**भासैकेन समालिप्य पटलं गृध्रदृष्टि-
कृत । शम्बूकमांससंजातं रसः पी-
तोऽनुवासनम् ॥ ३८४ ॥**

एक महीनेतक इस अंजनके द्वारा नेत्रोमें लेखन क्रिया करनेसे पटलगत दोष दूर होकर दृष्टि गृध्रके समान होजाती है । इसपर शम्बूकके माँसरसको पान करे तथा अनुवासन वस्ति देवे ॥ ३८४ ॥

**आढकीमूलमरिचहरितालरसांजनैः ।
विद्वेऽक्षिण सगुडावर्त्तियोज्या दिव्या-
बुषेपिता ॥ ३८५ ॥**

अरहरकी जड़, कालीमिरच, हरिताल और रसौत इनको समान भाग लेकर एकत्र पीसकर गुडमें मिलाकर वत्ती बनालेवे । इस वत्तीको मेघके जलमें पीसकर वेधे हुए नेत्रोमें प्रयोग करे ॥ ३८५ ॥

**त्रिफलाव्योषसिन्धूर्त्थैर्वृतं सिद्धं पि-
बेत्रः । चक्षुष्यं भेदनं हृद्यं दीपनं
कफनाशनम् ॥ ३८६ ॥**

त्रिफला, त्रिकुटा और सैधानमक इनके कल्कके द्वारा घृतको पकाकर पान करे । यह घृत-नेत्रोको हितकारी, भेदक, हृद्यको हितकारी, अग्नि-को दीपन करनेवाला और कफको नष्ट करनेवाला है ॥ ३८६ ॥

फलत्रिकाद्यघृत ।

**फलत्रिकाभीरुकषायसिद्धं दुग्धेन
यष्टीमधुकल्कयुक्तम् । सर्पिः समं
क्षौद्रचतुर्थभागं हन्यात्रिदोषं तिमिरं
सुदारुणम् ॥ ३८७ ॥**

त्रिफलेका काथ, शतावरका स्वरस और दूध इनमें मुलैठीका कल्क डालकर यथाविधिसे घृतको पकावे । फिर इस घृतको चौथाई भाग शहद मिलाकर सेवन करे तो त्रिदोषजन्य दारुण तिमिररोग दूर होता है ॥ ३८७ ॥

मध्यमत्रिफलाद्यघृत ।

त्रिफलाव्यूषणं द्राक्षा मधुकं कटुरो-

हिणी । प्रपौण्डरीकं सूक्ष्मैला विड-
ङ्गं नागकेसरम् ॥ ३८८ ॥ नीलोत्प-
लं शारिवे द्वे चन्दनं रजनीद्वयम् ।
कार्षिकैः पयसा तुल्यैः त्रिगुणं त्रि-
फलारसम् ॥ ३८९ ॥ घृतप्रस्थं पचे-
देतत्सर्वनेत्ररुजापहम् । तिमिरं दो-
षमात्रावं कामलां काचमर्बुदम् ॥ ३९० ॥
विसर्पं पटलं कंडूं तोदनं श्वयथुं त-
था । खालित्यं पलितश्चैव केशानां
पतनं तथा ॥ ३९१ ॥ अन्ये च बह-
वो रोगा नेत्रजा वर्त्मजाश्च ये । ता-
न्सर्वान्नाशयत्याशु भास्करस्तिमिरं
यथा ॥ ३९२ ॥ न चैवास्मात्परं
किञ्चिद्भेषजं काश्यपादिभिः । दृष्टि-
प्रसादनं दृष्टं यथा स्यात्त्रिफलाघृत-
म् ॥ २९३ ॥

त्रिफला, त्रिकुटा, दाख, मुलैठी, कुटकी, पुंडेरिया, छोटी इलायची, वायविडग, नागकेशर, नीलेकमल, दोनो शारिवा, चन्दन, हलदी और दारुहलदी ये प्रत्येक औषधि एक एक तोला और सबकी बराबर दूध तथा दूधसे तिगुना त्रिफलेका रस लेवे । सबको एकत्र करके इनमें एक प्रस्थ घृतको पकावे । यह घृत-सर्व प्रकारके नेत्ररोग, तिमिर, दोष, आस्राव, कामला, काच, अर्बुद, विसर्प, पटल, खुजली, तोडने सरीखी पीडा, सूजन, खालित्य, पलितरोग, वालोंका पतित होना और अन्यान्य अनेक प्रकारके नेत्ररोग तथा वर्त्मरोग इन सबको इस प्रकार तत्काल नष्ट करता है, जिसप्रकार सूर्य अन्धकारके समूहको नष्ट करदेता है । काश्यपादि ऋषियोंने इस त्रिफलाघृतसे उत्तम अन्य कोई भी औषध नेत्रोको हितकारी नहीं कही है ॥ ३८८-३९३ ॥

महात्रिफलाद्यघृत ।

**त्रिफलाया रसप्रस्थं प्रस्थं भृङ्गरसस्य
च । वृषस्य च रसप्रस्थं शतावर्ष्या-
श्च तत्समम् ॥ ३९४ ॥ अजाक्षीरं गु-
डूच्याश्च ह्यामलक्या रसं तथा । प्र-
स्थं प्रस्थं समाहृत्य सर्वैरेभिर्वृतं प-**

चेत् ॥ ३९५ ॥ कल्केः कणासिता-
द्राक्षात्रिफलानीलमुत्पलम् । मधुकं
क्षीरकाकोली मधुपर्णी निदिग्धिका
॥ ३९६ ॥ तत्साधुसिद्धं विज्ञाय शु-
भे भाण्डे निधापयेत् । ऊर्ध्वपानमधः
पानं मध्ये पानञ्च शस्यते ॥ ३९७ ॥ याव-
न्तो नेत्ररोगास्तान्पानादेवापि कर्ष-
येत् । सरक्ते रक्तदुष्टे च रक्ते चातिशुते-
ऽपि च ॥ ३९८ ॥ नक्तांधेतिमिरे काचे
नीलिकापटलार्बुदे । अभिष्यन्देऽधि-
मन्थे च पक्ष्मकोपे सुदारुणे ॥ ३९९ ॥
नेत्ररोगेषु सर्वेषु वातपित्तकफेषु च ।
अदृष्टिं मन्ददृष्टिञ्च कफवातप्रदूषि-
ताम् ॥ ४०० ॥ स्रवतो वातपित्ता-
भ्यां सकण्ठासन्नदूरकृत् । गृध्रदृष्टि-
करं सद्यो बलवर्णाश्रिवर्द्धनम् ॥ स-
र्वनेत्रामयं हन्यात्रिफलाद्यं महाघृ-
तम् ॥ ४०१ ॥

त्रिफलेका रस १ प्रस्थ, भागरेका रस १ प्रस्थ,
अडूसेका रस १ प्रस्थ, शतावरका रस १ प्रस्थ, चक-
रीका दूध १ प्रस्थ, गिलोयका रस एक प्रस्थ और
आमलका रस एक प्रस्थ लेवे तथा पीपल, मिश्री,
दाख, त्रिफला, नीलकमल, मुलैठी, क्षीरकाकोली,
कुम्भेर और कटेरी इन सबका कल्क आधासेर लेवे
सबको एकत्र मिलाकर इनमे उत्तमविविसे गायके एक
प्रस्थ घृतको पकावे । इस घृतको त्रिधिपूर्वक पकाकर
एक उत्तम वासनमे भरकर रखदेवे । इसको भोज-
नके पहिले, भोजनके बीचमे और भोजनके पीछे पान
करे । इस घृतको पान करते ही सर्वप्रकारके नेत्र-
रोग दूर होते है । यह घृत-रक्तयुक्त, दुष्टरक्तयुक्त,
अतिरक्तघ्रावयुक्त, नेत्ररोग, रात्र्यधरोग, तिमिररोग,
काच, नीलिका, पटल, अर्बुद, अभिष्यन्द, अधि-
मन्थ, दारुणपक्ष्मकोप, वात, पित्त और कफजन्य
समस्त नेत्ररोगोमे प्रयोग करना चाहिए। यह अदृष्टि,
मन्ददृष्टि, कफ, वातसे दूषितदृष्टि, नेत्रघ्राव, वात-
पित्तजन्य खुजली और सर्मापकी वस्तुका दूर दीखना
इन सब रोगोंको दूर करता है और तत्काल दृष्टिको

गृध्रके समान कर देता है । तथा बल वर्ण और उठग-
मिका बढ़ाना है । यह महात्रिफलाघृत सब प्रकारके
नेत्ररोगोंको दूर कर देता है ॥ ३९५-४०१ ॥

द्वितीयमहात्रिफलाघृत ।

शतमेकं हरीतक्यास्त्रिगुणञ्च वि-
भीतकम् । धात्रीफलानां चत्वारि
वृषमार्कवयोः समम् ॥ ४०२ ॥ च-
तुर्गुणोदकं दत्त्वा शनैर्मृद्वाग्निना प-
चेत् । चतुर्भागस्थितं ज्ञात्वा तदेव-
मवतारयेत् ॥ ४०३ ॥ शर्करामधुकं
द्राक्षा मधुयष्टि निदिग्धिका । का-
कोलीक्षीरकाकोली-त्रिफलानागके-
सरम् ॥ ४०४ ॥ पिप्पलीचन्दनं सु-
स्तं त्रायमाणा तथोत्पलम् । घृतप्र-
स्थं समं क्षीरं कल्केरेतैर्विपाचयेत् ॥ ४०५ ॥
हन्यात्सतिमिरं काचं नक्तान्ध्यं शु-
क्रमेव च । तथा स्रावञ्च कण्डूञ्च श्व-
यथुञ्च कषायताम् ॥ ४०६ ॥ कलुप-
त्वञ्च नेत्रस्य विन्दूर्मपटलापहम् ।
बहुनात्र किमुक्तेन सत्रात्रिवामया-
न्हरेत् ॥ ४०७ ॥ यस्य चोपहता
दृष्टिः सूर्याग्निभ्यां प्रशस्यते । त-
स्मै तद्वेषजं प्रोक्तमूर्ध्वजन्तुगदापह-
म् ॥ ४०८ ॥ यथादर्शो मले नति
निर्मलत्वं नियच्छति । तद्वदेतेन पी-
तेन दृष्टिर्निर्मलतां व्रजेत् ॥ ४०९ ॥
वारिद्रोणद्वयञ्चैव वृषभृङ्गकयोस्तु-
ले ॥ ४१० ॥

हरड १००, बहेडे ३०० और आमले ४०० एवं
अडूसा और भांगरा ये प्रत्येक सौ २ पल लेकर
सबको एकत्र चौगुने-अर्थात् दो द्रोण-जलमें डाल-
कर मन्द मन्द अग्निसे पकावे । जब पकते २ चौथाई
भाग जल शेष रहजाय तब उतारकर छानलेवे ।
फिर उस काथमे मिश्री, महुआ, दाख, मुलैठी, कटेरी
काकोली, क्षीरकाकोली, त्रिफला, नागकेशर,
पीपल, चंदन, नागरमोथा, त्रायमाण और कमल

इन सबका समानभाग कल्क एव वरावरका दूध और एक प्रस्थ घृत इन सबको एकत्र मिश्रित करके विधिपूर्वक घृतको पकावे । यह घृत-तिमिर, काच, नक्तान्ध्य (रतांधा), शुक्र, स्नाव, कण्डू, सूजन, कपायता, क्लृपता, नेत्रगतविदु, अर्म और पटल आदि रोगोंको दूर करता है । बहुत कहनेसे क्या यह घृत सम्पूर्ण नेत्ररोगोंको दूर करता है । जिनकी सूर्य अथवा अग्निसे दृष्टि दूषित होगई है, उनके लिये यह त्रिफलाघृत उत्तम औषध है । तथा ऊर्ध्वजत्रु रोगोंकी भी यह अपूर्व औषध है । जिस प्रकार दर्पणमें देखनेसे मलके होनेपर भी स्वच्छरूप दीखता है, उसी प्रकार इस घृतको पान करनेसे दृष्टि निर्मलताको प्राप्त होती है ॥ ४०२-४१० ॥

भास्कराद्यघृत ।

कृष्णा सशर्करा द्राक्षा चतुर्मधुकय-
ष्टिका । एकद्वित्रिचतुर्थांशभागाः
सर्वेषु कल्पिताः ॥ ४११ ॥ मृद्वग्नि-
ना पचेद्धीमान्वहु दर्व्या विघट्टयन् ।
भास्कराख्यमिदं सर्पिर्व्रह्मणा निर्मि-
तं पुरा ॥ ४१२ ॥ तिमिरं शुक्तिकं
हन्ति पिष्टं वाऽध्युषितानि च । अ-
दृष्टिं मन्ददृष्टिश्च दिवा नक्तान्ध्यमेव
च ॥ ४१३ ॥ अस्योपयोगादत्यन्तं
संहारादतिवर्त्तयेत् । वयस्तम्भनमा-
युष्यं वलीपलितनाशनम् ॥ प्रदरश्च
क्षयं श्वासं शुक्रमूत्रमलार्त्तिनुत ॥ ४१४ ॥

पीपल १ भाग, मिश्री २ भाग, दाख ३ भाग और मुलैठी ४ भाग लेवे । इन सबको एकत्र जलमें पीसकर मंद २ अग्निसे पकावे और बार बार कर-
छीसे चलाता जाय । एक भाग इसमें घृत भी डाल देवे । जब पकते पकते करछीसे लगाने लगे तब उतार कर एक उत्तम चिकने वासनमें करके रख देवे । इस भास्कर नामक घृतको पूर्वकालमें ब्रह्माजीने निर्माण किया है । इसको सेवन करनेसे तिमिर, शुक्तिरोग, पिष्ट, अम्लाध्युषित, अदृष्टि, मन्ददृष्टि दिवाव, रात्रयन्व इत्यादि समस्त नेत्ररोग दूर होते हैं । तथा अवस्था स्थापन होती है, आयुकी वृद्धि होती है, वली और पलितरोग नष्ट होते हैं, एव

प्रदर, क्षय, श्वास, शुक्रदोष, मूत्र और मलकी पीडा शांत होती है ॥ ४११-४१४ ॥

महापटोलाद्यघृत ।

पटोलं कटुकं दावीं निम्बवासाफल-
त्रिकम् । डुरालभा पर्पटकं त्रायन्ती
घनचन्दनम् ॥ ४१५ ॥ किरातति-
क्तयष्ट्याह्वे पिप्पलीकौटजं फलम् ।
लामज्जकं मृणालश्च तत्फलं च समं
भवेत् ॥ ४१६ ॥ एतैस्तु कार्षिकैः
कल्कैर्विपचेत्सर्पिरुत्तमम् । आमलक्या
रसं देयं शतावर्याः समन्वितम् ४१७ ॥
सुरदारुकषायश्च भृङ्गराजरसं तथा ।
प्रस्थं प्रस्थश्च गृहीयाद्विप्रस्थं सर्पिषः
पचेत् ॥ ४१८ ॥ पाने च भोजने दद्या-
त्सर्वमूर्धामयापहम् । विशेषादक्षि-
रोगघ्नं तिमिरं च त्रिदोषजम् ॥ ४१९ ॥
पटलं रक्तराजिश्च व्रणशुक्रहरं तथा ।
काचार्मनाक्त्यमान्ध्यश्च कण्डूपिष्टा-
मयान्हरेत् ॥ ४२० ॥ वर्त्मशोथ-
हरं चैव दृष्टिरोगकुलापहम् । आ-
सन्नतिमिराणाश्च यश्च दूरान्न प-
श्यति ॥ अदृष्टिं मन्ददृष्टिश्च सर्व-
नेत्रामयापहम् ॥ ४२१ ॥ बलव-
र्णकरं धन्यं दृष्टिपुष्टिविवर्द्धनम् ।
महापटोलाद्यमिदं ख्यातं वैदेहनिर्मि-
तम् ॥ ४२२ ॥

पटोलपत्र, त्रिकुटा, दाखहलदी, नीम, अड्डसा, त्रिफला, धमासा, पित्तपापडा, त्रायमाण, नागरमोथा, चन्दन, चिरायता, मुलैठी, पीपल, इन्द्रजौ, लाम-
ज्जकतृण, कमलकी नाल और कमलगट्टा इन प्रत्येक औषधियोंका कल्क एक एक तोला तथा आमलोका
स्वरस १ प्रस्थ, शतावरका रस १ प्रस्थ, देवदारुको काथ १ प्रस्थ और भाँगरेका स्वरस १ प्रस्थ एवं उत्तम गायका घृत २ प्रस्थ लेवे । सबको यथाविधिसे मिला करं धीरे धीरे घृतको पकावे । इस घृतको भोजन और पानमें व्यवहार करनेसे सर्व प्रकारके शिरके रोग

दूर होते हैं । तथा विशेष करके नेत्ररोग, त्रिशेप-
जन्य तिमिररोग, पटल, रक्तराजि, व्रणशुक्र, काच,
अर्म, रात्र्यंध, कण्डू, पित्तल, वर्त्मशोथ और सर्वप्र-
प्रकारके दृष्टिरोग दूर होते हैं । यह घृत-दूरके पदार्थों
को न देखना, अदृष्टि, मंददृष्टि और सर्वप्रकारके नेत्र-
रोगोंको दूर करने तथा बल और वर्णको उत्पन्न करने
और नेत्रोंकी व्योतिको बढानेके लिए वन्य है इस
महापटोलाद्य घृतको वैदेह आचार्यने निर्माण किया
है ॥ ४१५-४२२ ॥

रास्नाद्यघृत ।

रास्नाफलत्रयकाथे दशमूले च तत्कृ-
ते । कल्के च जीवनीयानां घृतं नि-
मिरनाशनम् ॥ ४२३ ॥

रास्ना, त्रिफला और दशमूलके काथमे जीवनीय-
गणकी औषधियोंका कल्क डालकर घृतको पकावे ।
इस घृतको सेवन करनेसे तिमिररोग दूर होता
है ॥ ४२३ ॥

विभीतकाद्यतैल ।

विभीतकाशिवाधात्रीपटोलारिष्टवा-
सकैः । आठकीरससंसिद्धं तैलं ति-
मिरनुत्परम् ॥ ४२४ ॥

वहेडे, हरड, आमले, पटोलपत्र, नीम और अडूसा
इनके कल्कके द्वारा अरहरके रस या काथमे तेलको
पकावे यह तेल तिमिररोगको नष्ट करता है ॥ ४२४ ॥

त्रिफलाद्यतैल ।

संपिप्य त्रिफलालोभ्रमुशीराणि प्रियं-
गुकम् । तैलमेतैर्विपक्वं स्याच्छैष्मिके
नस्यमुत्तमम् ॥ ४२५ ॥

त्रिफला, लोध, खस और फूलप्रियगू इनके कल्कके
द्वारा तेलको पकावे । इस तेलकी कफजन्यनेत्ररोगमें
नस्य देना उत्तम है ॥ ४२५ ॥

गोमयतैल ।

गवां शकृत्काथविपक्वमुत्तमं हितञ्च
तैलं तिमिरे च नस्यतः । घृतं हितं
केवलमेव पैत्तिके तथाऽणुतैलं पव-
नासृगुत्थयोः ॥ ४२६ ॥

गायके गोवरके काथमें विधिपूर्वक तेलको पकावे ।
इस तेलकी नस्य देनेसे तिमिररोग दूर होता है ।
घृतको नस्य देनेसे केवल पित्तजन्यतिमिररोग दूर
होता है और अनुतैल वातरक्तके दोषोंको दूर करता
है ॥ ४२६ ॥

भृङ्गराजतैल ।

भृङ्गराजरसप्रस्थे यष्टीमधुपलेन च ।
तैलस्य कुडवं पक्वं सद्यो दृष्टिं प्रसा-
दयेत् ॥ नस्याद्वलीपलीतघ्नं मासेनै-
तन्न संशयः ॥ ४२७ ॥

भांगरेके १ प्रस्थ रसमे चार तोले मुलैठीका कल्क
डालकर एक कुडव परिमाण तेलको पकावे । यह तेल
तत्काल दृष्टिको प्रसन्न करता है । इसकी नस्य देनेसे
वली और पलितरोग एक महीनेमें दूर होते हैं ४२७

द्वितीय भृङ्गराजतैल ।

भृङ्गप्रस्थं तैलात्कुडवं तथा पलञ्च
मधुकस्यापि । क्षीरप्रस्थविपक्वं गत-
मपि चक्षुर्विनिवर्त्तयेत् ॥ ४२८ ॥

भांगरेका स्वरस १ प्रस्थ, तिलका तेल १ कुडव,
मुलैठी ४ तोले और उत्तम गायका दूध १ प्रस्थ
लेवे । सबको एकत्र मिलाकर यथाविधिसे तेलको
पकावे । यह तेल नष्ट हुए नेत्रोंको फिर नवीन कर
देता है ॥ ४२८ ॥

अजिततैल ।

तैलस्य पचेत्कुडवं मधुकस्य पलेन
कल्कापिष्टेन । आमलकरसप्रस्थं क्षी-
रप्रस्थेन संयुतं कृत्वा ॥ ४२९ ॥
अजितं नाम्ना तैलं तिमिरं हन्या-
न्निमिप्रोक्तम् । विमलां कुरुते दृष्टिं
नष्टामप्यानयेन्नयने ॥ ४३० ॥

तिलका तेल १ कुडव, मुलैठीका कल्क चार तोले
आमलोंका स्वरस १ प्रस्थ और दूध एक प्रस्थ लेवे ।
इन सबको एकत्र मिलाकर यथाविधि तेलको पकावे
इसको अजिततैल कहते हैं । यह तेल निमिआचार्य-
ने कहा है । इसको व्यवहार करनेसे तिमिररोग दूर
होता है, दृष्टि निर्मल होती है और नष्ट दृष्टि भी
फिरसे नूतन होती है ॥ ४२९ ॥ ४३० ॥

नीलोत्पलाद्यतैल ।

नीलोत्पलं मधुकनागरपुण्डरीकद्रा-
क्षासुयष्टिमधुकांशुमतीकणाश्च ।
कण्टारिकामलकशावरचोग्रगन्धाः
कासीसशर्करबलावृषभाश्च रास्त्रा ॥
॥ ४३१ ॥ मञ्जिष्ठया सह समैरपि
सूक्ष्मपिष्टैस्तैलं पचेत्तु पयसा च
चतुर्गुणेन । नस्यं नृणां तिमिरकाच-
निशान्ध्ययुक्तान् पाकात्ययान् सपट-
लार्जुननीलिकांश्च ॥ ४३२ ॥ पिच्छा-
र्बुदार्मरुधिरसृतिवर्त्मकंडून् स्पदं
जयेद्ब्रिहितभोजनभङ्गुराणाम् । वा-
धिर्यमर्दितहनुग्रहदन्तचालं नासा-
स्यप्यगलगण्डकृकाटिकार्त्तान् ४३३ ॥
कर्णाक्षिशूलदशनामयशीर्षरोगाञ्जि-
ह्वामयाञ्जयाति कण्ठगतांश्च सर्वान् ।
अभ्यञ्जनेन नियतं शिरसि प्रयत्नात्
सर्वान्निहंति वदनाक्षिशिरोविका-
रान् ॥ ४३४ ॥

नीलकमल, महुएके फूल, सोठ, पुण्डेरिया, दाख,
मुलैठी, शालिपर्णी, पीपल, कटेरी, आमले, लोध, वच,
कसीस, मिश्री, खिरैटी, अड्डसा, रायसन और
मजीठ इन सबको समान भाग लेकर वारीक पीस-
कर उस कल्कके द्वारा चौगुने दूधमें तेलको पकावे ।
यह तेल नस्यादिके द्वारा प्रयोग करनेसे तिमिर,
काच, रात्र्यंध, पाकात्यय, पटल, अर्जुन, नीलिका,
पिच्छ, अर्बुद, अस्म, रुधिरस्त्राव, वर्त्मकण्डू, स्पन्द-
ता, वधिरता, अर्दित, हनुग्रह, दन्तचालन, नासास्त्राव
मुखस्त्राव, गलगण्ड, कृकाटिका, कर्ण और नेत्रशूल,
दतरोग, शिरारोग, जिह्वारोग और सम्पूर्ण कंठरोग
इन सबको नष्ट करता है । तथा निरन्तर शिरपर
मालिस करनेसे समस्त मुखरोग, नेत्ररोग और शि-
रोरोगको दूर करता है ॥ ४३१ ॥ ४३२ ॥ ४३३ ॥
॥ ४३४ ॥

नृपवल्लभतैल ।

जीवकर्षभकौ मेदा द्राक्षांशुमती
निदिग्धिकावृहती । मधुकं बलाविडङ्गं

मञ्जिष्ठाशर्करारास्त्राः ॥ ४३५ ॥ नी-
लोत्पलं श्वदंष्ट्रा प्रपौण्डरीकं पुनर्न-
वा लवणम् । पिप्पल्यः सर्वेषां भागे-
रक्षांशिकैः पिष्टैः ॥ ४३६ ॥ तैलं वा
यदि सर्पिर्दत्त्वा क्षीरं चतुर्गुणं पक्व-
म् । आत्रेयनिर्मितमिदं तैलं नृप-
वल्लभं नाम्ना ॥ ४३७ ॥ तिमिरं पट-
लं काचं नक्तान्ध्यमर्बुदं तथान्ध्यञ्च ।
श्वेतञ्च लिङ्गनाशं नाशयति नील-
काव्यङ्गम् ॥ ४३८ ॥ मुखनासादौर्ग-
न्ध्यं पलितञ्च कालजं हनुस्तम्भम् ।
श्वासं कासञ्च हिकां शोषं स्तम्भं
तथान्यांश्च ॥ ४३९ ॥ मुखजान्ध्य-
मर्द्धभेदं रोगं बाहुग्रहं शिरःस्तम्भ-
म् । रोगानथोर्ध्वजत्रोः सर्वानचि-
रेण नाशयति ॥ ४४० ॥

जीवक, ऋषभक, मेदा, दाख, शालिपर्णी, कटेरी,
वडी कटेरी, सुलैठी, खिरैटी, वायविडंग, मजीठ,
मिश्री, रायसन, नीलकमल, गोखुरु, पुण्डेरिया, पुन-
र्नवा, सैवानमक और पीपल यह प्रत्येक औषधि एक
एक तोला लेकर एकत्र पीस लेवे । इनके कल्कके द्वारा
तेल या घृतको चौगुने दूधमें पकावे । इस नृपवल्ल-
भतेलको महार्पि आत्रेयने निर्माण किया है । यह तेल
तिमिर, पटल, काच, रात्र्यन्ध, अर्बुद, अन्धता, श्वेत,
लिङ्गनाश, नीलिका, व्यंग, मुख और नासिकाकी
दुर्गंध, पलितरोग, हनुस्तम्भ, श्वास, खौसी, हिका,
गोप, स्तम्भ तथा अन्यान्य मुखजन्य रोग, अन्ध्य,
अर्द्धभेद, बाहुग्रह, शिरस्तम्भ, अर्द्धजत्रुरोग और
अन्यान्य बहुतसे रोगोको दूर करता है ॥ ४३५-४४०

महापिप्पल्याद्यतैल ।

पिप्पली मधुकं द्राक्षा शुभ्रा ऋषभ-
जीवकौ । सोत्पलं पुण्डरीकञ्च मधुप-
र्णीफलत्रयम् ॥ ४४१ ॥ धावनीक्षी-
रकाकोली-मञ्जिष्ठावृहतीबलाः ।
पुनर्नवा शलाह्व च विडङ्गं गोखुरु
स्थिरा ॥ ४४२ ॥ एतान्यर्द्धपलानीह

श्लक्ष्णपिष्टानि पाचयेत् । त्रिफलाभृ-
ङ्गवासानां प्रपीड्य प्रस्थसम्मिता-
न् ॥ ४३ ॥ बजिसारो वरस्तस्य
प्रस्थमेकं तु दापयेत् । गृष्टैः क्षीरस्य
प्रस्थौ च द्वौ द्वौ तस्य प्रदापयेत् ४४४
तिलतैलं समादाय शनैर्मृद्वग्निना
पचेत् । त्रिफलाद्येन पयसा सम्यग्द-
ष्टन्तु मानवम् ॥ ४४५ ॥ मोदकेना-
भयाद्येन कृत्वा संशोधनं ततः ।
यथोक्तेन विधानेन भिषग्वश्यं प्रदा-
पयेत् ॥ ४४६ ॥ तिमिरे च सन-
क्तान्धये शुक्ले काचे चतुर्विधे । आस-
न्नं यो न पश्येत यश्च दूरान्न पश्य-
ति ॥ ४४७ ॥ प्रकाशमायतं वा
यो नष्टदृष्टिश्च मानवः । मन्ददृष्टिः
स्तब्धदृष्टिरधोदृष्टिश्च योजयेत् ४४८ ॥
आतिरिक्ते प्रदिष्टे च रक्ते वाताश्रिते
तथा । वातपित्तप्रदुष्टेऽक्षिण पित्तश्ले-
ष्मप्रदूषिते ॥ ४४९ ॥ कंडूयते च स्र-
वति पित्तेनात्याकुलाक्षता ॥ ४५० ॥
विद्युत्खद्योतवत्पश्येत्सूर्य्यचन्द्रसमप्र-
भाम् । सर्वदा चक्रता दृष्टिः सर्वनेत्र-
विकारनुत् ॥ ४५१ ॥

पीपल, मुलैठी, दाख, फटकिरी, ऋपभक, जीवक,
कमल, पुंडेरिया, कुम्भेर, त्रिफला, पिठवन, क्षीरका-
कोली, मजीठ, बडी बटेरी, खिरैटी, पुनर्नवा, शता-
वर, वायविडग, गोखुरु और शालिपर्णी ये प्रत्येक
औषधि दो दो तोले लेकर वारीक पीसकर कल्क
बनावे । तथा त्रिफला, भांगरा और अङ्गुसा इनको
पीसकर इनका कल्क एक एक प्रस्थ लेवे । विजय-
सारका काथ १ प्रस्थ, वाराहीकंदका स्वरस २ प्रस्थ,
एक वारकी व्याई हुई गायका दूध २ प्रस्थ और
तिलका तेल १ प्रस्थ इन सबको एकत्र मिलाकर
उत्तम विधिसे तेलको पकावे । रोगीको अच्छे प्रकार-
से देखकर त्रिफलादिके रसके साथ अथवा दूधके साथ
अभयाद्य मोदकको सेवन कराकर प्रथम संशोधन
करे, पश्चात् इस तेलको यथाविधिसे सेवन करावे ।

इस तेलको विधिपूर्वक सेवन करनेसे तिमिर,
रान्धन्ध, शुक्र, चार प्रकारका काच, जो समीपमें
उपस्थित पदार्थोंको नहीं देखसकता, जो दूरके पदार्थोंको
नहीं देखसकता, जिसकी दृष्टि अच्छे प्रकारसे प्रकट
नहीं होती, नष्टदृष्टि, मंददृष्टि, स्तब्धदृष्टि अधोदृष्टि,
नेत्रोंसे विशेष स्राव होना, रुधिरजन्य दोष, वानज-
नित पीडा, वातपित्तसे दूषित नेत्र, पित्तकफजन्य नेत्र-
रोग, खुजली, स्राव, पित्तसे नेत्रोंकी व्याकुलता,
नेत्रत्रण जो मनुष्य विजली या खद्योतके समान
देखते हैं, सूर्य और चंद्रमाके समान प्रकाशका दीख-
ना, सदैव दृष्टिका चकित होना और सर्व प्रकारके
नेत्ररोग दूर होते हैं ॥ ४४१ ॥ ४५१ ॥

अथ कृष्णागतकी चिकित्सा ।

काचे रक्तं जलौकाभिः हत्वा पूर्वो-
क्तमाचरेत् ॥ ४५२ ॥

काचरोगमें जलौका आदिके द्वारा रुधिर निक-
लवाकर पूर्वोक्त चिकित्सा करे ॥ ४५२ ॥

मरिचादिचूर्णाञ्जन ।

शाणाद्धं मरिचं द्वौ च पिप्पल्यर्ण-
वफेनयोः । शाणार्धं सैन्धवाच्छाणं
नवसौवीरकाञ्जनात् ॥ ४५३ ॥ पिष्टं
सूक्ष्मं शिलायाश्च चूर्णाञ्जनमिदं शु-
भम् । कण्डूकाचकफार्त्तानां मलाना-
श्च विशोधनम् ॥ ४५४ ॥

कालिमिरच २ माशे, पीपल २ माशे, समुद्रफेन
२ माशे, सैधानमक २ माशे और सौवीराञ्जन १८
माशे लेवे, इन सबको एकत्र शिलापर वारीक पीस-
लेवे । यह चूर्णाञ्जन-कण्डू, काच, कफजन्य पीडा
और मलको दूर करता है ॥ ४५३ ॥ ४५४ ॥

मेषशृङ्गाद्यञ्जन ।

समेषशृङ्गाञ्जनभागसम्मितः शङ्गा-
ञ्जनः काचमलं व्यपोहति ॥ ४५५ ॥

भेडके सींगको घिसकर अञ्जन बनावे और उसमे
बराबरका शंख मिलावे । दोनोको एकत्र घिस लेवे
यह अञ्जन-काच और मलको दूर करता है ॥ ४५५ ॥

मनःशिलाद्यञ्जन ।

शिलासैन्धवकासीसशंखयोषरसां-
जनैः । सक्षौद्रैः काचशुक्रार्मितिमि-

रघ्नी रसक्रिया ॥ ४५६ ॥ दोषांधे
तिभिरान्धे च तिमिरोक्तं क्रमं हि-
तम् ॥ ४५७ ॥

मनगिल, सैधानमक, कसीस, अंख, त्रिकुटा
और रसौत इन सबको समान भाग लेकर एकत्र
जलमे घिसकर अजन बनावे । फिर इसको शहदमे
मिलाकर नेत्रोमे आजें तो काच, शुक्र, अर्मम और
तिमिर रोग नष्ट होता है । दोषान्ध और तिमिरान्ध-
रोगमें तिमिरोक्त चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ४५६ ॥
॥ ४५७ ॥

वचादिक्वाथ ।

वचात्रिवृच्चन्दनकुण्डली च भृनिम्ब-
निम्बे रजनी सवासा । प्रस्थं जलस्य
क्वथिताष्टभागं पिवेत्सुजीर्णं नकुला-
न्ध्यरोगे ॥ ४५८ ॥ काचं निशान्ध्यं
तिमिरं तथाऽन्यान्नेत्रामयांस्तस्य च
वर्त्मसंधौ । चिरप्रवृत्तानचिरेण हन्ति
वज्रो यथाद्रीन्सुरराजमुक्तः ॥ ४५९ ॥

वच, निसोत, चन्दन, गिलोय, चिरायता, नीम,
हलदी और अहूसा ये प्रत्येक औषधि समान भाग
लेकर एक प्रस्थ जलमें पकावे । जब पकते पकते
जल आठवां भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छान
लेवे । इस क्वाथको पान करनेसे पुराना नकुलान्ध्य-
रोग दूर होता है । तथा काच, रात्र्यन्ध, तिमिर एवं
अन्यान्य वर्त्म और संविगतरोग ये सब बहुत पुराने
होनेपर भी शीघ्र दूर होजाते हैं । जिसप्रकार इन्द्रके
हाथसे छूटाहुआ वज्र अनेक पर्वतोंको नष्ट कर देता
है ॥ ४५८ ॥ ४५९ ॥

अथ नक्तान्धकी चिकित्सा ।

करञ्जपद्मकिञ्जल्कं चन्दनोत्पलगैरि-
कैः । गोशकृद्रससंपिष्टैर्नक्तान्धये-
ऽञ्जनमिष्यते ॥ ४६० ॥

करजके बीज, कमलकी केशर, चन्दन, कमल
और गेरु इनको एकत्र गोबरके रसमें पीसकर नेत्रोमे
आजनेसे रात्र्यन्धरोग दूर होता है ॥ ४६० ॥

रसाञ्जनं निशा दारु जातीपत्ररसो
मधु । नक्तान्ध्यतां जयेदेतदञ्जनं सा-
धु योजितम् ॥ ४६१ ॥

रसौत, हलदी, देवदारु, चमेलीके पत्तोका रस
और शहद इन सबको एकत्र घिसकर नेत्रोमे आज-
नेसे रात्र्यन्धरोग दूर होता है ॥ ४६१ ॥

रसाञ्जनं हरिद्रे द्वे मालतीमधुपल्ल-
वाः । गोशकृद्रससंयुक्ता वर्त्ती रा-
त्र्यन्धनाशिनी ॥ ४६२ ॥

रसौत, हलदी, दारुहलदी, चमेली और महुवेके
पत्ते इन सबको एकत्र पीसकर गोबरके रसमें
खरल करके वर्त्ती बना लेवे । इन वर्त्तियोंको नेत्रोमे
लगानेसे रात्र्यन्धरोग दूर होता है ॥ ४६२ ॥

जातीपत्ररसक्षौद्रनिशाह्वयरसाञ्जनैः ।
नक्तान्ध्यमञ्जनं हन्यात्कृष्णाया गोम-
यान्वितम् ॥ ४६३ ॥

चमेलीके पत्तोका रस, शहद, हलदी और रसौत
इनको एकत्र पीसकर नेत्रोमे आजनेसे अथवा केवल
पीपलको गोबरके रसमें घिसकर नेत्रोमे लगानेसे
रात्र्यन्धरोग दूर होता है ॥ ४६३ ॥

दध्रा विषुष्टं मरिचं रात्र्यन्धयाञ्जन-
मिष्यते । पिप्पल्योऽपि हितास्तद्व-
द्रोशकृद्रसभाविताः ॥ ४६४ ॥

कालीमिरचको भेडके दहीमें घिसकर नेत्रोमे आ-
जनेसे रात्र्यन्धरोग दूर होता है इसीप्रकार पीपलको
गोबरके रसमें भावना देकर नेत्रोमे लगानेसे रात्र्यन्ध
रोग दूर होता है ॥ ४६४ ॥

कणा छागयकृन्मध्ये पक्ता तत्राणुपे-
षिता । अचिराद्धन्ति नक्तान्ध्यं
तद्रत्सक्षौद्रमूषणम् ॥ ४६५ ॥

पीपलको चकरिके, यकृत (कलेजा) में पकाकर
उसीमें घिसकर नेत्रोमे लगानेसे तत्काल ही रसौधी दूर
होजाती है । अथवा कालीमिरचको शहदमे घिसकर
नेत्रोमे लगानेसे रसौधी दूर होती है ॥ ४६५ ॥

पचेच्च गोधायकृदूर्धपाटितं सुधूरितं
मागधिकाभिराग्निना । निषेधितं त-
द्यकृदंजनेन निहन्ति नक्तान्ध्यमसं-
शयं खलु ॥ ४६६ ॥

गोहृके यकृत (कलेजा) मे पीपलको पकाकर और उसीमे घिसकर नेत्रोंमे लगानेसे रात्र्यन्ध (रतौधी) दूर होती है ॥ ४६६ ॥

अथ दृष्टिरोगकी चिकित्सा ।

नीलोत्पलस्य किञ्चलकं गौरिकञ्च श-
कृद्रसम् । गुटिकाञ्जनमेतत्स्याद्दिन-
रात्र्यन्धयोर्हितम् ॥ ४६७ ॥

नीलकमलकी केशर और गेरू इनको गोबरके रसमे खरल करके गोलिया बना लेवे । उनको घिस कर नेत्रोंमे लगानेसे दिवांधता और रात्र्यन्धता दूर होती है ॥ ४६७ ॥

नदीजशंखत्रिकटून्यथाञ्जनं मनःशि-
ला द्वे च निशे गवां शकृत् । सचन्द्र-
नेयं गुटिकाथ चाञ्जने प्रशस्यते रा-
त्रिदिनेष्वपश्यताम् ॥ ४६८ ॥

नदीका शंख, सोठ, मिरच, पीपल, अजन, मैन-
गिल, हलदी, दासहलदी और चन्दन इनको समान भाग लेकर गोबरके रसमे पीसकर गोली बना करके नेत्रोंमे आजनेसे रात्रि और दिन दोनोंमे न देखने-
वाले मनुष्योंको अच्छे प्रकारसे देखने लगता है ॥ ४६८ ॥

सूर्यदर्शनदग्धायां क्रियां शीतां
प्रयोजयेत् । हिमं वृष्टं घृतोपेतमञ्जन-
ञ्चोपशस्यते ॥ ४६९ ॥

सूर्यको देखनेसे जिनकी दृष्टि दग्ध होगई है उनके लिये शीतल उपचार करे । कपूर या चन्दनको घृतमे घिसकर नेत्रोंमे लगानेसे नेत्रोंकी गरमी दूर होती है ॥ ४६९ ॥

रसाञ्जनं घृतं क्षौद्रं तालीसं स्वर्ण-
गौरिकम् । गोशकृद्रससंयुक्तं पित्तोप-
हतदृष्टये ॥ ४७० ॥

रसोत, घी, गृहद, तालीसपत्र और पीलागेरू इन सबको एकत्र पीसकर गोबरके रसमे मिलाकर नेत्रों-
में लगानेसे पित्तहत दृष्टि शांत होती है ॥ ४७० ॥

काश्मरीपुष्पमधुकदावीलोध्ररसांज-
नेः । सक्षौद्रमञ्जनं कुय्यात्पित्तव्या-
धिप्रशान्तये ॥ ४७१ ॥

कुम्भरके फूल, सुईठी, दासहलदी, लोध और रसोत इनको एकत्र वारीक पीसकर गृहदमे मिलाकर नेत्रोंमें आजनेसे पित्तजन्य नेत्र रोग दूर होता है ॥ ४७१ ॥

अथ शुक्लगतरोगका निदान ।

प्रस्तार्थर्मके लक्षण ।

प्रस्तार्थर्म तनुस्तीर्णं श्यावं रक्त-
निभं सिते ।

नेत्रोंके सफेद भागमे पतला, विस्तीर्ण (फैला-
हुआ चौड़ा), कलौंचलिये हुए अथवा लाल और मण्डलाकार जो सफेद चिह्न होता है उसको प्रस्ता-
र्थर्म कहते हैं ।

शुक्लार्थर्मके लक्षण ।

सश्वेतं मृदु शुक्लार्थर्मं शुक्ले तद्वर्द्धते
चिरात् ॥ ४७२ ॥

नेत्रोंके सफेद भागमें बहुत सफेद और कोमल जो चिह्न होता है, उसको शुक्लार्थर्म कहते हैं, वह बहुत दिनोंमे बढ़ता है ॥ ४७२ ॥

रक्तार्थर्मके लक्षण ।

पद्माभं मृदु रक्तार्थर्मं यन्मांसधीयते
सिते ।

लाल कमलके समान लाल और नरम जो मांस नेत्रोंके सफेद भागमे बढ़ता जाता है उसको रक्तार्थर्म कहते हैं ।

अधिमांसार्थर्मके लक्षण ।

पृथुमृद्वाधिमांसार्थं बहुलञ्च यकृत्रि-
भम् ॥ ४७३ ॥

विस्तीर्ण, कोमल, गाढा और कुछ एक कलौस लिये जो मांस बढ़ता है उसको अधिमांसार्थर्म कहते हैं ॥ ४७३ ॥

स्नाय्वर्मके लक्षण ।

स्थिरं प्रसारि मांसाढ्यं शुष्कं स्नाय्व-
र्मपञ्चमम् ॥ ४७४ ॥

सफेद भागमे कठिन, फैलनेवाला और स्यावरहित जो मांस ऊँचा होता है उसको स्नाय्वर्म कहते हैं ॥ ४७४ ॥

शुक्तिरोगके लक्षण ।

श्यावाः स्युः पिशितनिभास्तु विन्दवो ये शुक्त्याभाः सितनियताः स शुक्तिसंज्ञः ।

नेत्रोंके सफेदभागमें काले रंगका, मांसके समान और सीपके आकारवाला जो बिंदु होता है उसका शुक्ति कहते हैं ।

अर्जुनके लक्षण ।

एको यः शशरुधिरोपमश्च विन्दुः शुक्लस्थो भवति तमर्जुनं वदन्ति ४७५

नेत्रोंके सफेद भागमें खरगोशके रुधिरके समान जो एक बिंदु होता है उसको अर्जुन कहते हैं ४७५

पिष्टकके लक्षण ।

श्लेष्ममारुतकोपेन शुक्ले मांसं समुन्नतम् । पिष्टवत्पिष्टकं विद्धि मलात्तादर्शसन्निभम् ॥ ४७६ ॥

कफ और वातके प्रकोपसे नेत्रोंके सफेदभागमें पिष्टकके समान जो मांस ऊँचा होता है और मलयुक्त दर्पणके समान दीखता है उसको पिष्टक कहते हैं ४७६

शिराजालके लक्षण ।

जालाभः कठिनशिरो महान्सरक्तः सन्तानः स्मृत इह जालसंज्ञितस्तु ।

नेत्रोंके सफेदभागमें जालके समान कठिन शिराओंसे व्याप्त, बाल और बडा जो शिराओंका समूह होता है, उसको शिराजाल या जाला कहते हैं ।

शिराजपिडिकाके लक्षण ।

शुक्लस्था सितपिडिका शिरावृत्ता या तां ब्रूयादसितसमीपजा शिराजा ॥ ४७७ ॥

नेत्रोंके सफेदभागमें शिराओंसे आवृत जो सफेद फुंसी कृष्णभागके समीप होती है, उसको शिराजपिडिका कहते हैं ॥ ४७७ ॥

बलासके लक्षण ।

कांस्याभोऽमृदरथ वारिविन्दुकल्पो विज्ञेयो नयनसिते बलाससंज्ञः ४७८ ॥

नेत्रके सफेद भागमें काँसेके समान सफेद, कठिन और जलके बूंदके समान कुछ एक ऊँची जो बूंद होती है उसको बलासग्रथित कहते हैं ॥ ४७८ ॥

शुक्लगतरोगकी चिकित्सा ।

प्रस्तार्यर्म च स्नाय्वर्म तथैवार्माधिसंजकम् । लोहितार्म च शुक्लार्म कृष्णं प्राप्तानि छेदयेत् ॥ ४७९ ॥

प्रस्तार्यर्म, स्नाय्वर्म, अधिमांसार्म, रक्तार्म और शुक्लार्म ये सब जब नेत्रके कृष्णभागमें पहुँच जायें तब इनको शस्त्रके द्वारा छेद देना चाहिये ॥ ४७९ ॥

अर्म वालपं दधिनिभं नीलं रक्तमथापि वा । धूसरं तनु यच्चापि शुक्लवत्सम्पाचरेत् ॥ ४८० ॥

जो अर्म अल्प हो, दहीके समान सफेद, नीला, लाल, धूसर अथवा पतला हो तो शुक्लार्मके समान चिकित्सा करे ॥ ४८० ॥

कृष्णलोहरजस्ताम्रशंखविद्रुमसिन्धुजैः । समुद्रफेनकासीसस्रोतोऽञ्जनसुमस्तुभिः । लेपनं वा कृतं नस्यं परमुत्तममम्मणि ॥ ४८१ ॥

काले लोहेका चूर्ण, तावा, शंख, भूंगा, सैधानमक, समुद्रफेन, कसीस और अंजन इनको एकत्र दहीके पानीमें खरल करके नेत्रोंमें लेप करना अथवा इसके द्वारा नस्य देना अर्म्मरोगमें अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ ४८१ ॥

पिप्पलीत्रिफलालाक्षा लोहचूर्णं ससैन्धवम् । भृङ्गराजरसे पिष्टं शुटिः कांजनमिष्यते ॥ ४८२ ॥ अर्म सतिमिरं काचं कंडूं शुक्रं तथार्जुनम् । अजकां नेत्ररोगांश्च हन्यान्निरवशेषतः ॥ ४८३ ॥

पीपल, त्रिफला, लाख, लोहेका चूर्ण और सैधानमक इन सबको एकत्र खरल करके भोंगरेके रसमें पीसकर गोली बनाकर नेत्रोंमें लगानेसे अर्म्म, तिमिर, काच, कण्डू, शुक्र, अर्जुन, अजका और सर्व प्रकारके नेत्ररोग दूर होते हैं ॥ ४८२ ॥ ४८३ ॥

संचूर्ण्य मरिचाऽक्षे च रजन्या रस-
मर्दिते । लेपनादर्मणां नाशं करो-
त्येष प्रयोगराट् ॥ ४८४ ॥

कालीमिरच और वहेडेको पीसकर हलदीके रसमें
खरल करके लेपकरनेसे अर्मरोग नष्ट होता है ॥ ४८४ ॥

पुष्पाख्यताक्षर्यजसितोदधिफेनशङ्ख-
सिन्धूत्थगैरिकशिलामरिचैः समां-
शैः । पिष्टैस्तु माक्षिकरसेन रसक्रि-
येयं, हन्त्यर्मकाचतिमिरार्जुनवर्त्म-
रोगान् ॥ ४८५ ॥

सौंफ, रसात, मिश्री, समुद्रफेन, शंख, सैधानमक,
गेहू, मैन्शिल और कालीमिरच इन सबको समान भा-
ग लेकर शहदमें खरल करके नेत्रोंमें लगानेसे अर्म, म,
काच, तिमिर, अर्जुन और वर्त्मरोग नष्ट होते हैं ॥ ४८५ ॥

क्रियां शुक्तयामये कुय्यात्पित्ताभि-
ष्यन्दजिच्छुभाम् ॥ ४८६ ॥ बलासा-
ह्वयपिष्टे तु कार्य्य शोणितमोक्ष-
णम् । कफाभिष्यन्दवत्सर्वं क्रमं कु-
य्याद्विचक्षणः ॥ अञ्जनं कट्फलं
व्योषवीजपूररसाञ्जनैः ॥ ४८७ ॥

शुक्तिरोगमें पित्ताभिष्यन्दके समान चिकित्सा
करनी चाहिये । बलासप्रथित और पिष्टरोगमें रक्त-
मोक्षण कराना चाहिये । तथा कफाभिष्यन्दरोगके
समान सम्पूर्ण चिकित्सा करे । एव अञ्जन, कायफल,
त्रिकुटा, विजौरानाँवू और रसात इन सबको एकत्र
पीसकर नेत्रोंमें आज्ञे ॥ ४८६ ॥ ४८७ ॥

अर्जुने शर्करामस्तुक्षौद्रैराश्च्योतनं
हितम् ।

अर्जुनरोगमें मिश्री, दहीका पानी और शहद इन-
को मिलाकर आश्च्योतन करे ।

शङ्खः क्षौद्रेण संयुक्तः कतकः सैन्ध-
वेन वा । सितयाऽर्णवफेनो वा पृथ-
गञ्जनमर्जुने ॥ ४८८ ॥

शंखको शहदमें घिसकर, निर्मलीके फलोंको
सैधेनमकके साथ घिसकर और मिश्रीको समुद्रफे-
नके साथ घिसकर नेत्रोंमें आज्ञेसे अर्जुनरोग दूर
होता है ॥ ४८८ ॥

अथ सन्धिजरोरोगका निदान ।

पक्कः शोथः सन्धिजां यः सतोदः
पूयस्त्रावी सोऽत्र पूयालसाख्यः ।

नेत्रकी सन्धियोंमें उत्पन्न होकर जो सूजन पक-
जाती है उसमें सुई चुभाने सरीखी पीडा होती है
और उसमेंसे दुर्गन्धित राध बहती है उसको पूयालस
रोग कहते हैं ॥

उपनाहके लक्षण ।

ग्रन्थिर्नाल्पो दृष्टिसन्धावपाकी कंडू-
प्रायो नीरुजस्तूपनाहः ॥ ४८९ ॥

नेत्रकी सन्धियोंमें बड़ी, कम पकनेवाली, खुजली-
युक्त और अल्प पीडावाली, जो गाँठ उत्पन्न होती है
उसको उपनाह कहते हैं ॥ ४८९ ॥

स्त्राव अथवा नेत्रनाडीके लक्षण ।

गत्वा सन्धीनश्रुमार्गेण दोषाः कुर्युः
स्त्रावाँल्लक्षणैः स्वरूपेतान् । तं हि
स्त्रावं नेत्रनाडीति चैके तस्या लिङ्गं
कीर्त्तयिष्ये चतुर्धा ॥ ४९० ॥ पाका-
त्सन्धी संखवेद्यस्तु पूयं पूयस्त्रावोऽसौ
गदः सर्वजस्तु । श्वेतं सांद्रं पिच्छलं
यः स्रवेत्तु श्लेष्मस्त्रावोऽसौ विकारो
मतस्तु ॥ ४९१ ॥ रक्तस्त्रावः शो-
णितोत्थो विकारो रक्तं चोष्णं संख-
वेत्तप्रभूतम् । हारिद्राभं पीतमुष्णं
जलाभं पित्तात्स्त्रावः संखवेत्सन्धि-
म-
ध्यात् ॥ ४९२ ॥

दोष अश्रुमार्गके द्वारा संधियोंमें जाकर अपने
अपने लक्षणोंसे युक्त स्त्रावको उत्पन्न करते हैं । उस
स्त्रावको कोई कोई आचार्य नेत्रनाडी कहते हैं । यह
नेत्रनाडी चार प्रकारकी होती है, उसके लक्षण नीचे
कहते हैं । जो संधिमें पाक होनेसे दुर्गन्धित
राध बहती है, उसको पूयास्त्राव रोग कहते हैं ।
वह त्रिदोषसे उत्पन्न होता है । जो सफेद,
गाढा और स्निग्ध स्त्राव होता है उसको

कफत्राव कहते हैं । जिस सन्धिमेंसे बहुत गरम रुधिर
वहता है उसको रक्तजन्य रुधिरस्त्राव कहते हैं । संधि-
मेंसे हलदीके समान पीला, गरम या पानीके समान
जो स्त्राव होता है उसको पित्तत्राव कहते हैं ॥४९०॥
॥ ४९१ ॥ ४९२ ॥

पर्वणी तथा अलजीके लक्षण ।

ताम्रा तन्वी दाहशूलोपपन्ना रक्ताज्
ज्ञेया पर्वणी वृत्तशोथा । जाता स-
न्धौ कृष्णशुक्लऽलजी स्यात्तस्मिन्नेव
ख्यापिता पूर्वलिङ्गैः ॥ ४९३ ॥

नेत्रकी संधियोंमें तावके समान लाल, छोटी,
गोल और सूजन युक्त जो फुंसी उत्पन्न होती है उसमें
दाह और शूल होता है उसको पर्वणी कहते हैं तथा
नेत्रोंकी सफेद और काली संधियोंमें जो पूर्वोक्त लक्ष-
णोंवाली अर्थात् प्रमेहाधिकारमें लिखेलक्षणोके अनु-
सार फुंसी उत्पन्न होतो उसको अलजी कहते हैं ४९३

कृमिग्रन्थिके लक्षण ।

कृमिग्रन्थिर्वर्त्मनः पक्ष्मणश्च कंडूं कु-
र्युः कृमयः संधिजाताः । नानारूपा
वर्त्मशुक्लान्तसन्धौ गच्छंत्यन्तर्लोचनं
दूषयन्तः ॥ ४९४ ॥

जो पलककी संधिमें और पलकोंके रोमोंकी संधिमें
खुजली करनेवाले अनेकप्रकारके कृमि उत्पन्न होते हैं
ये आंखोंके पलक और सफेद भागकी संधिमें विच-
रते हुए नेत्रके भीतरके भागको दूषित कर देते हैं,
इसको कृमिग्रंथि कहते हैं ॥ ४९४ ॥

सन्धिजरोगकी चिकित्सा ।

पूयालसे शिरां भित्त्वा ततस्तमुप-
नाह्य वा । नेत्रपाकविधिं कुर्यात्परं
मुक्तांजनं हितम् ॥ ४९५ ॥

पूयालसरोगमें प्रथम शिराको बध कर फिर उपना-
हकर्म अर्थात् लेप पिंडी आदि प्रयोग करे । तथा नेत्र-
पाकके समान चिकित्सा करे और महामुक्तांजन
प्रभृति औषधि सेवन करे ॥ ४९५ ॥

भित्त्वोपनाहं कफजं पिप्पलीमधुसैं-
धवैः । विलिखेन्मण्डलाग्नेण प्रच्छये-
द्वा समन्ततः ॥ ४९६ ॥

कफजउपनाहको प्रथम भेदन करके फिर पीपल
शहद और सैधानमक इनसे एकत्र पीसकर मण्डला-
ग्रशस्त्रके द्वारा लेखनकर्म करे । अथवा उपर्युक्त
औषधियोंको नेत्रोंमें भरे ॥ ४९६ ॥

त्रिफलामृतकासीससैन्धवैः सरसां-
जनैः । रसक्रिया कृमिग्रन्थौ भिन्ने
स्यात्प्रतिसारणम् ॥ ४९७ ॥

कृमिग्रन्थिरोगमें त्रिफला, घी, हीराकसीस, सैधा-
नमक और रसात इनको एकत्र मिलाकर नेत्रोंमें
डाले और जो वह ग्रन्थि फूटजाय तो प्रतिसारण
करे ॥ ४९७ ॥

पर्वणीं पिटिकां सन्धिभागे छिन्द्या-
दसंशयम् । हितं चाभ्यधिके छिन्ने
श्च्योतनं मधुसैन्धवैः ॥ ४९८ ॥

पर्वणीपिटिकाकां निःसंदेह होकर संधिभागमें
छेदन करे । फिर शहदमें सैधानमकका चूर्ण मिला-
कर नेत्रोंमें उसकी दूँदे डाले ॥ ४९८ ॥

स्त्रावेषु त्रिफलाक्वाथं यथादोषं प्र-
योजयेत् । क्षौद्रेणाज्येन पिप्पल्या
मिश्रं विध्येच्छिरां तथा ॥ ४९९ ॥

स्त्राव होनेपर यथादोषानुसार त्रिफलेके क्वाथमें
शहद, घी और पीपल डालकर देवे एवं शिरावेध
करे ॥ ४९९ ॥

पथ्याक्षधात्रीफलमध्यबीजौखिद्वयेक-
भागैर्विदधीत वर्त्तिम् । तयांऽजये-
दश्रुमातिप्रवृद्धमक्ष्णोर्हरेत्कष्टमपि प्र-
कोपम् ॥ ५०० ॥

हरडकी मींग ३ भाग, बहेडेकी मींग २ भाग
और आमलेकी मींग १ भाग इनको एकत्र पीसकर
वत्ती बनालेवे । इस वत्तीको नेत्रोंमें लगानेसे नेत्रों-
का अत्यन्त बढाहुआ स्त्राव, पीडा और प्रकोप दूर
होता है ॥ ५०० ॥

सप्ताहशारिवानन्ता-कालीयागरु-
चन्दनैः । शतपुष्पाश्वगन्धानां चूर्णै-
स्तैलं विपाचयेत् ॥ ५०१ ॥ पयस्य-
ष्टगुणे नस्यमेतदश्रुहरं परम् ॥ ५०२ ॥

सतावन, शारिवा, अतन्तमूल, दारुहलदी, अगर, चंदन सोफ और असांध इन सबको एकत्र पीसकर कल्क बना लेवे। उस कल्कके साथ अठगुने दूधमें तेलको पकावे। इस तेलकी नस्य देनेसे नेत्रस्वावरोग दूर होता है ॥ ५०१ ॥ ५०२ ॥

**चक्षुःस्त्रावप्रशान्त्यर्थं कार्द्यमेतन्म-
होषधम् । हिज्जलस्य फलं घृष्टा पा-
नीये नित्यमंजनम् ॥ ५०३ ॥ कार्पा-
सीफलजम्बाम्बं जलैर्वृष्टं रसांजनम् ।
मधुयुक्तं चिरोत्थञ्च चक्षुःस्त्रावमपो-
हति ॥ ५०४ ॥**

नेत्रोंके स्त्रावको नष्ट करनेके लिए ये सब औषध प्रयोग करे। समुद्रफलको जलमे घिसकर नित्य नेत्रोंमे अंजे अथवा कपासके फल, जामुन, आमकी छाल और रसौत इन सबको एकत्र जलमे घिस कर और शहद मिलाकर नेत्रोंमे लगावे तो नेत्रोंका स्त्राव दूर होता है ॥ ५०३ ॥ ५०४ ॥

अथ वर्त्मजरोगका निदान ।

उत्संगिनीके लक्षण ।

**अभ्यन्तरमुखी ताम्रा बाह्यतो वर्त्म-
तश्च या । सोत्सङ्गात्सङ्गपिडिका
रक्तजा स्थूलकंडुरा ॥ ५०५ ॥**

नेत्रोंके पलकोंके भीतर मुखवाली, बाहरसे लाल और भीतरसे जो राधयुक्त फुन्सी होती है उसके भीतर अनेको छोटी छोटी फुन्सियाँ होती है। वह स्थूल और खुजलीयुक्त होती है, उसको उत्संगिनी कहते है। वह रुधिरके प्रकोपसे होती है और नीचेके कोयेमे होती है ऐमा जानना चाहिए ॥ ५०५ ॥

कुम्भिकाके लक्षण ।

**वर्त्मन्ते पिडिकाध्माता भिद्यन्ते च
स्त्रवन्ति च । भिषग्भिराद्यैस्ताः प्रोक्ताः
कुम्भिकाः सन्निपातजाः ॥ ५०६ ॥**

पलकके किनारेपर ऊँची और जलकुम्भीके वजिके समान जो फुसियाँ होती है और फूटती है तथा फूट २ कर वहती है उनको कुम्भीका कहते है, सन्निपातसे उत्पन्न होती है और असाध्य है ॥ ५०६ ॥

पोथकीके लक्षण ।

**स्त्राविण्यः कण्डुरा गुर्व्यो रक्तसर्षप-
सन्निभाः । रुजावत्यश्च पिडिकाः
पोथक्य इति कीर्तिताः ॥ ५०७ ॥**

नेत्रोंके पलकोंमें जो फुन्सियें बटनवाली, खुजलीसहित, भारी, लाल सरसोंके समान लाल और पीडा करनेवाली होती हैं उनको पोथकी कहते हैं ५०७

वर्त्मशर्कराके लक्षण ।

**पिटिका या खरा स्थूला सूक्ष्मा-
भिरभिसंवृता । वर्त्मरथा शर्करा नाम
स रोगो वर्त्मद्रूपकः ॥ ५०८ ॥**

नेत्रोंके कोयेमे जो बटी और कठिन स्पर्शवाली फुन्सी हो और वह छोटी छोटी अनेक फुन्सियोंसे व्याप्त हो तो उसको वर्त्मशर्करा कहते हैं। वह कोयोंको विगाड देती है ॥ ५०८ ॥

अशोवर्त्मके लक्षण ।

**एवार्खीजप्रतिमाः पिटिका मन्द-
वेदनाः । श्लक्षणाः खराश्च वर्त्मस्था-
स्तदशोवर्त्म कीर्त्यते ॥ ५०९ ॥**

पलकोंमें ककडीके बाजोंके समान, मन्दपीडा-युक्त, चिकनी और तीक्ष्ण अग्रभागवाली जो फुसियाँ होती है उनको अशोवर्त्म कहते है ॥ ५०९ ॥

शुष्कार्शके लक्षण ।

**दीर्घाकुरः खरस्पर्शो दारुणोऽभ्यन्त-
रोद्भवः । व्याधिरेषोऽतिविख्यातः
शुष्कार्श इति कीर्त्यते ॥ ५१० ॥**

नेत्रके पलकके भीतर खरखरे, कठिन और दारुण जो बडे बडे अकुर होते है उनको शुष्कार्श कहते है ॥ ५१० ॥

अंजननामिकाके लक्षण ।

**दाहतोदवती ताम्रा पिडिका वर्त्म-
सम्भवा । मृद्वी मन्दरुजा सूक्ष्मा
ज्ञेया साञ्जननामिका ॥ ५११ ॥**

जो फुसी दाह, सुई चुभाने सरीखी पीडायुक्त, लाल, कोमल, छोटी और मन्दपीडावाली नेत्रके पलकमे उत्पन्न होती है, उसको अंजननामिका कहते है ॥ ५११ ॥

बहुलवर्त्मके लक्षण ।

वर्त्मोपचीयते यस्य पिडिकाभिः
समन्ततः । सर्वाभिः स्थिराभिश्च
विद्याद्बहुलवर्त्म तत् ॥ ५१२ ॥

जिसके नेत्रोंके पलकके चारों ओरसे त्वचाके
वर्णके समान वर्णवाली और कठिन जो फुंसिये
भरजाती हैं उसको बहुलवर्त्म कहते हैं ॥ ५१२ ॥

वर्त्मबन्धके लक्षण ।

कंडूमताल्पतोदेन वर्त्मशोथेन यो
नरः । न समं छादयेदक्षि स भवेद्ब-
र्त्मबन्धकः ॥ ५१३ ॥

जब नेत्रके पलकमें नेत्रोंके समान सूजन हो-
जानेसे मनुष्य नेत्रोंको अच्छे प्रकारसे वन्द नहीं कर
सकता है उसको वर्त्मबंध कहते हैं । उस सूजनमें
सुजली और कुछएक सुई चुभामे सरीखी पीडा
होती है ॥ ५१३ ॥

क्लिष्टवर्त्मके लक्षण ।

मृद्वल्पवेदनं ताम्रं यद्वर्त्म सममेव च ।
अकस्माच्च स्रवेद्रक्तं क्लिष्टवर्त्मोति त-
द्विदुः ॥ ५१४ ॥

नेत्रके दोनों कोथे जब नरम, ताम्रवर्ण, अल्पपी-
डायुक्त और अकस्मात् एक साथ लाल होजाते हैं
तो उसको क्लिष्टवर्त्म कहते हैं ॥ ५१४ ॥

वर्त्मकर्दमके लक्षण ।

क्लिष्टं पुनः पित्तयुतं शोणितं विदहे-
द्यदा । ततः क्लिष्टत्वमापन्नमुच्यते
वर्त्मकर्दमम् ॥ ५१५ ॥

उपर्युक्त क्लिष्टवर्त्म जब पित्तसहित रुधिरको दहन
करता है तब वह गीला होजाता है, गीलेपनसे उसको
वर्त्मकर्दम कहते हैं ॥ ५१५ ॥

श्याववर्त्मके लक्षण ।

वर्त्म यद्वाह्यतोऽन्तश्च श्यावं शूनं
सवेदनम् । तदाहुः श्याववर्त्मोति
वर्त्मरोगविशारदाः ॥ ५१६ ॥

जो नेत्रके पलकके बाहर और भीतर काली सूजन
हो और उसमें पीडा हो तो उसको वर्त्मरोगजानने-
वाले वैद्य श्याववर्त्म कहते हैं ॥ ५१६ ॥

प्रक्लिन्नवर्त्मके लक्षण ।

अरुजं बाह्यतः शूनं वर्त्म यस्य नर-
स्य हि । प्रक्लिन्नवर्त्म तद्विद्यात् क्लि-
न्नमत्यर्थमन्ततः ॥ ५१७ ॥

जिस मनुष्यके कोथे कुछ एक पीडायुक्त, बाहरसे
सूजे हुए और अधिकतर कीचडयुक्त तथा भीजे हुए
हो तो उसको प्रक्लिन्नवर्त्म कहते हैं ॥ ५१७ ॥

अक्लिन्नवर्त्मके लक्षण ।

यस्य धौतान्यधौतानि सम्बध्यन्ते
पुनः पुनः । वर्त्मन्युपरिपक्वानि
विद्यादक्लिन्नवर्त्म तत् ॥ ५१८ ॥

जिसके नेत्रके पलक धोनेपर या नहीं धोनेपर
वारम्बार चिपककर मिलजायें और पके नहीं अर्थात्
कचे रहे उसको अक्लिन्नवर्त्म कहते हैं ॥ ५१८ ॥

वातहतवर्त्मके लक्षण ।

विमुक्तसन्धिनिश्चेष्टं वर्त्म यस्य न
मीलयते । एतद्वातहतं वर्त्म सरुजं
यदि वारुजम् ॥ ५१९ ॥

जिसके पलककी सन्धि अलग अलग होजायें,
पलक मिचे और खुलें नहीं और वेदनासहित अथवा
वेदनारहित तथा सकुचनेवाली होजायें तो उसको
वातहतवर्त्म कहते हैं ॥ ५१९ ॥

वर्त्मविदुके लक्षण ।

वर्त्मन्तरस्थं विषमं ग्रन्थिभूतमवेद-
नम् । विज्ञेयमर्बुदं पुंसां सरक्तमवि-
लम्बितम् ॥ ५२० ॥

मनुष्योंके पलकोंके भीतर टेढ़ी, तिरछी, अल्पपी-
डावाली, लाल और शीघ्र बढ़नेवाली कठिन गांठ
हो तो उसको वर्त्मविदुः जानना चाहिए ॥ ५२० ॥

निमेषके लक्षण ।

निमेषिणीः शिरा वायुः प्रविष्टो
वर्त्मसंश्रयः । चालयत्यथ वर्त्मानि
निमेष इति तद्विदुः ॥ ५२१ ॥

पलकोंमें रहनेवाली वायु पलकोंको खोलने और
बंद करनेवाली नेत्रोंकी नसोंमें प्राप्त होकर जब पल-
कोंको चलायमान करती है उसको तो निमेष कहते
हैं ॥ ५२१ ॥

शोणितार्शके लक्षण ।

वर्त्मस्थौ यो विवर्धेत लोहितो मृदु-
रङ्कुरः । तद्रक्तजं शोणितार्शश्छिन्नं
छिन्नं विवर्धते ॥ ५२२ ॥

नेत्रके कोयेमें जो लाल और नरम मासका अंकुर
उत्पन्न होकर बढ़ता है उसको रुधिरजन्य शोणितार्श
कहते हैं । यह वारंवार काटनेसे वारंवार बढ़जाते
हैं ॥ ५२२ ॥

लगणके लक्षण ।

अपाकी काठिनः स्थूलो ग्रन्थिर्वर्त्म-
भवो रुजः । सकंडूः पिच्छिलः को-
लसंस्थानो लगणस्तु सः ॥ ५२३ ॥

नहीं पकनेवाली, काठिन, अल्प पीडायुक्त, बड़ी,
खुजली सहित, चिकनी और झड़वेरके समान जो
गाँठ नेत्रके पलकमें होती है, उसको लगण कहते
हैं ॥ ५२३ ॥

विसवर्त्मके लक्षण ।

त्रयो दोषा बहिः शोथं कुर्युश्छि-
द्राणि वर्त्मनोः । प्रस्रवंत्यन्तरुदकं
विसवद्विसवर्त्म तत् ॥ ५२४ ॥

वातादि तीनों दोष कुपित होकर नेत्रोंके पलकोंके
ऊपर सूजन और छिद्रोंको उत्पन्न करते हैं । उन
छिद्रोंमेंसे कमलकदके छिद्रोंके समान जल झरता
रहता है उसको विसवर्त्मरोग कहते हैं ॥ ५२४ ॥

कुश्वनके लक्षण ।

वाताद्या वर्त्मसंकोचं जनयन्ति
यदा मलाः । तदा द्रष्टुं न शक्नोति
कुश्वनं नाम तद्विदुः ॥ ५२५ ॥

जब वातादिदोष नेत्रोंके दोनों पलकोंको संकुचित
करते हैं तब मनुष्य देखनेको असमर्थ होजाता है
उसको कुंचन कहते हैं ॥ ५२५ ॥

पक्ष्मकोपके लक्षण ।

प्रचालितानि वातेन पक्ष्माण्यक्षि
विशन्ति हि । घृष्यन्त्यक्षि मुहुस्ता-
नि संरम्भं जनयन्ति च ॥ ५२६ ॥
असिते च सिते भागे मूलकोशात्प-
तन्त्यपि । पक्ष्मकोपः स विज्ञेयो
व्याधिः परमदारुणः ॥ ५२७ ॥

वायुंस चलायमान पलकोंके वाल नेत्रोंमें घुम
जाते हैं और वे वारंवार नेत्रोंको घिसते हैं इससे
नेत्रके काले या सफेद भागमें सूजन होजाती है और
वह वाल जड़से टूट जाते हैं इस दारुणरोगको
पक्ष्मकोप कहते हैं ॥ ५२६ ॥ ५२७ ॥

पक्ष्मशातके लक्षण ।

वर्त्मपक्ष्माशयगतं पित्तं रोमाणि
शान्तयेत् । कंडूं दाहश्च कुरुते पक्ष्म-
शातं तमादिशेत् ॥ ५२८ ॥

पलक और कोयेकी जड़में प्राप्त हुआ पित्त नेत्रोंके
वालोंको गिरा देता है । इससे नेत्रोंमें खुजली और
दाह होती है उसको पक्ष्मशात कहते हैं ॥ ५२८ ॥

वर्त्मजरोगकी चिकित्सा ।

उत्सङ्गिनी बहुलकर्दमवर्त्मनी च
श्यावश्च यच्च पठितं त्विह बन्धवर्त्म ।
क्लिष्टश्च पोथकियुतं खलु वर्त्म यच्च
कुम्भीकिनी च सह शर्करया च ले-
ख्याः ॥ ५२९ ॥

उत्सङ्गिनी, बहुलवर्त्म, कर्दमवर्त्म, श्याववर्त्म,
बंधवर्त्म, क्लिष्टवर्त्म, पोथकीवर्त्म और कुम्भीनी
इन सबमें मिश्रीके द्वारा अथवा खँडके द्वारा लेखन
कर्म करे ॥ ५२९ ॥

श्लेष्मोपनाहलगणौ च विसं च भे-
द्याः, ग्रन्थिश्च यः कृमिकृतोऽश्वनना-
मिका च ॥ ५३० ॥

श्लेष्मोपनाह, लगण, विसवर्त्म, कृमिग्रन्थि और अंजननामिका इनको भेदन करे अर्थात् चीरदेवे ५३०

स्वित्रां भित्त्वा विनिष्पीड्य भिन्ना-
मञ्जननामिकाम् । शिलैलानतसि-
न्धूतैः सक्षौद्रैः प्रतिसारयेत् ॥ ५३१ ॥
रसाञ्जनमधुभ्यां वा भित्त्वा शस्त्रेण
कर्मवित् । प्रतिसारय्याजनैर्युञ्ज्यादु-
ष्णैर्दीपशिखोद्भवैः ॥ ५३२ ॥

अंजननामिका यदि फूटजाय तो, स्वेदित करके दवादेवे तथा भैनशिल, इलायची, तगर, सैधानमक और शहद इनसे प्रतिसारण करो। अथवा रसौत और शहद इनसे विधिपूर्वक घिसे या जलसे चीरकर गरम अंजनसे अथवा गरम दीपकके काजलसे घिसे ॥ ५३१ ॥ ५३२ ॥

स्वेदयेद् घृष्ट्यांगुल्या हरेद्रक्तं जलौ-
कता । करे संघृष्य दुर्वर्णमञ्जयेल्लो-
चनं मुहुः ॥ द्वित्रिवारं शमयति कं-
डू दोषान्विताञ्जनम् ॥ ५३३ ॥

अंजननामिकारोगमे हाथपर अंगुलीको घिसकर उससे नेत्रको सेके तथा जोक लगाकर रुधिर निकाल देवे । अथवा चाँदीको हाथपर घिसकर नेत्रमे लगावे इस प्रकार दिनमे दोन तीन वार करनेसे खुजली और द्योप सहित अंजननामिकारोग दूर होता है ॥ ५३३ ॥

रसाञ्जनं व्योषयुतं संपेष्य वटकी-
कृतम् । कंडूपाकान्वितां हन्ति नून-
मञ्जननामिकाम् ॥ ५३४ ॥

रसौत और त्रिकुटेको एकत्र पीसकर गोलियों बना लेवे । इन गोलियोंको घिसकर नेत्रमे लगानेसे खुजली और पाक सहित अंजननामिकारोग निश्चय दूर होता है ॥ ५३४ ॥

रोचनाक्षारतुत्थानि पिप्पल्यः क्षौद्र-
मेव च । प्रतिसारणमेकैकं भिन्ने ल-
गण इष्यते ॥ ५३५ ॥

गोरोचन, जवाखार, तूतिया, पीपल और शहद इनमेसे किसी एकके द्वारा लगणके फूटजानेपर प्रति-
सारण करे ॥ ५३५ ॥

निमेषं नाशमायाति सर्पिस्तेन च
पूरणम् ॥ ५३६ ॥

नेत्रोमें घृत भरनेसे निमेष नाशको प्राप्त होता है ॥ ५३६ ॥

स्वेदयित्वा विसग्रथिं छिद्राण्यस्य
निराश्रयः । पक्वं भित्त्वा तु शस्त्रेण
सैन्धवेन च पूरयेत् ॥ ५३७ ॥

विसवर्त्मग्रंथिको स्वेदन करके छिद्रको चौड़ा करे और जब वह पकजाय तब शस्त्रसे चीरकर सैधा-
नमक भर देवे ॥ ५३७ ॥

आलदारुवचा पिष्ट्वा सुरसापत्रवा-
रिणा । छायाशुष्ककृता वर्तिः क्लि-
न्नवर्त्मनिवारिणी ॥ ५३८ ॥

हरताल, देवदारु और वच इनको तुलसीके पत्तों के रसमे पीसकर वर्ती बनाकर छायामे सुखा देवे । यह वर्ती नेत्रोमे लगानेसे क्लिन्नवर्त्मरोगको दूर करती है ॥ ५३८ ॥

रसाञ्जनं सर्वरसो जातीपुष्पं मनः-
शिला । समुद्रफेनो लवणं गैरिकं
मरिचानि च ॥ ५३९ ॥ एतत्समांशं
मधुना पिष्ट्वा प्रक्लिन्नवर्त्मनि । अञ्ज-
नं केलदकंडूघ्नं पक्ष्मणाश्च प्ररोहण-
म् ॥ ५४० ॥

रसौत, राल, चमेलीके फूल, भैनशिल, समुद्रफेन, सैधानमक, गेरू और काली मिरच इन सब औषधियोंको समान भाग लेकर शहदमें पीसकर प्राक्लिन्न-
वर्त्मरोगमे नेत्रोमे लगानेसे क्लेद, खुजली और प्राक्लिन्नवर्त्मरोग दूर होता है । एव पलकोंके गिरेहुए वाल फिर जमजाते हैं ॥ ५३९ ॥ ५४० ॥

अथ पिह्लरोगका निदान ।

पित्तश्लेष्मप्रकोपेन वर्त्मान्तः संप्रकु-
प्यति । नाम्नाऽतिलोमशं वापि वि-
किलष्टं पिह्लमेव च ॥ ५४१ ॥

पित्त और कफरू कुपित होनेसे नेत्रोके पलकोंमे शोथ उत्पन्न होता है । उसको अतिलोमश या पिह्ल रोग कहते हैं ॥ ५४१ ॥

पिल्लरोगकी चिकित्सा ।

वर्तमानवलेखं बहुशस्तथा शोणित-
मोक्षणम् । पुनः पुनर्विरेकश्च पिल्लरो-
गातुरो भजेत् ॥ ५४२ ॥

पिल्लरोगसे पीडित मनुष्यके पलकोपर वारम्बार
लेखन करे, वारम्बार रक्तमोक्षण करे और वारम्बार
विरेचन करे अर्थात् जुल्लाव लेवे ॥ ५४२ ॥

पिल्ली स्निग्धो वमेत्पूर्वं शिरया च
सुतेऽसृजि । शिलारसाञ्जनव्योषगो-
पित्तैर्वन्तिरञ्जनम् ॥ ५४३ ॥ पिल्लघ्नं
छागमूत्रेण भावितं देवदारु च ॥
॥ ५४४ ॥ हरितालवचादारुसुरसा-
रसपिष्टितम् । अभयारससंपिष्टं
तगरं पिल्लनाशनम् ॥ ५४५ ॥

पिल्लरोगमें रोगीको प्रथम स्निग्ध करके वमन
करावे, पश्चात् शिरामोक्षण अर्थात् रुधिर निकल-
वावे । फिर मैनशिल, रसौत, त्रिकुटा और गौका
पित्त इनको एकत्र पीसकर बत्ती बनाकरके नेत्रोंमें
अंजन करे । अथवा देवदारुको बकरेके मूत्रमें भावना
देकर नेत्रोंमें आज्ञे तो पिल्लरोग दूर होता है । अथवा
हरताल, वच और देवराज इनको तुलसीके रसमें
पीसकर नेत्रोंमें आज्ञे तो पिल्लरोग अवश्य नष्ट
होजाता है । या हरडके रसमें तगरको पीसकर
नेत्रोंमें आज्ञेसे पिल्लरोग नष्ट होता है ॥ ५४३ ॥
॥ ५४४ ॥ ५४५ ॥

काकमाचीफलैकेन घृतयुक्तेन बुद्धि-
मान् । धूपयेत्पिल्लरोगार्त्तं पतन्ति
कृमयोऽचिरात् ॥ ५४६ ॥

केवल एक मकोयके फलोको घीमें मिलाकर पिल्ल
रोगीको घूप देनेसे पिल्लरोगके कृमि बहुत शीघ्र नष्ट
होजाते हैं ॥ ५४६ ॥

तुत्थकस्य पलं श्वेतमरिचानि च विं-
शतिः । त्रिंशता काञ्जिकपलैः पिष्ट्वा
ताम्रे निधापयेत् ॥ ५४७ ॥ पिल्ला-
नपिल्लान्कुरुते बहुवर्षात्थितानपि ।
उत्सेकेनोपदेहाशुक्रं दूशोथांश्च नाश-
येत् ॥ ५४८ ॥

नीलाथोथा १ तोले, भूरीमिर्च २० पल और
काँजी ३० पल लेवे । इन सबको एकत्र ताँबेके पात्रमें
खरल करके नेत्रोंमें लगानेसे बहुत दिनोंका पुराना
पिल्लरोग भी नष्ट होजाता है । और इनके द्वारा सेंक
या पट्टी बांधनेसे अश्रु, ग्बुजली और शोथ इन सबको
नष्ट करता है ॥ ५४७ ॥ ५४८ ॥

सैन्धवं गृहांवुयुक्तमपामार्गजटया
ताम्रे वृष्ट्वा । वर्तमविलेखनविधिना
सताहाचिपिटपिल्लहरम् ॥ ५४९ ॥

सैधानमक, काँजी और चिरचिटेकी जड इन
सबको एकत्र ताँबेके पात्रमें खरल करके वर्तमलेखनकी
विधिसे नेत्रोंमें लगानेसे सात दिनमें चिपट और
पिल्लरोग नष्ट होता है ॥ ५४९ ॥

कासीसजातिकलिकारसाञ्जनक्षौद्र-
मरिचतुल्यांशैः । अपनयति पिल्ल-
कत्वं पिष्टैः पयसाञ्जनं सद्यः ॥ ५५० ॥

कसीस, चमेलीकी कली, रसौत, शहद और
कालीमिरच ये सब औषधियाँ समान भाग लेकर
दूधमें पीसकर नेत्रोंमें आज्ञेसे तत्काल पिल्लरोगको
दूर करती हैं ॥ ५५० ॥

ताम्रपात्रे गुहामूलं सिन्धूत्थं मरि-
चान्वितम् । आरनालेन संवृष्टभञ्ज-
नं पिल्लनाशनम् ॥ ५५१ ॥

शालपर्णी और वृश्चिपर्णी इनकी जड, सैधानमक
और कालीमिरच इन सबको काँजीमें एकत्र घिसकर
नेत्रोंमें आज्ञेसे पिल्लरोग नष्ट होता है ॥ ५५१ ॥

पुष्पकासीसचूर्णं वा सुरसारसभा-
वितम् । ताम्रे दशाहं तत्पिल्लपक्ष्म-
शातनभञ्जनम् ॥ ५५२ ॥

अथवा चमेलीके पुष्प और कसीसके चूर्णको तुल-
सीके रसमें भावना देकर ताँबेके पात्रमें दस दिनतक
रक्खा रहनेदेवे । फिर उसको नेत्रोंमें आज्ञे तो पिल्ल
और पक्ष्मशातन रोग दूर होता है ॥ ५५२ ॥

प्रलेपाच्छमयेन्नूनं चिपिटारख्यं गदं
नृणाम् । शटीपत्रकनियर्यासं रसवृष्टं
हरीतकी ॥ ५५३ ॥

कचूर, तेजपात और हरड इनको इन्हींके रसमें घिसकर नेत्रोंमें प्रलेप करनेसे चिपिटरोग निम्सन्देह नष्ट होता है ॥ ५५३ ॥

लाक्षानिर्गुण्डीभृङ्गदावीरसेन श्रेष्ठं
कार्पासं भावितं सप्तकृत्वः । दीपं
प्रज्वाल्य सर्पिषां तत्समुत्था श्रेष्ठा
पिष्टे रोपणार्थं मषी सा ॥ ५५४ ॥

उत्तम कपासको लेकर लाख, निर्गुण्डी, भोंगरा और दासहलदी इन प्रत्येकके रसकी सात सातवार भावना देकर सुखा लेवे । फिर घीमें मिलाकर दीपकके ऊपर जलाकर उसकी स्याही बनालेवे । ये स्याही पिहुरोगमें रोपण करनेके लिये श्रेष्ठ है ॥ ५५४ ॥

याप्यः पक्ष्मोपरोधस्तु रोमोद्धरण-
लेखनैः । वर्त्मन्युपचितं लेख्यं स्त्रा-
व्यमुत्किलष्टशोणितम् ॥ ५५५ ॥

यदि पक्ष्मरोध रोग याप्य हो तो प्रथम पलकके रोमोंको उखाडकर लेखन करे, फिर नेत्रमें संचित हुए रुधिरको निकाले ॥ ५५५ ॥

अथोपपक्ष्मके लक्षण ।

अन्तर्मुखानि पक्ष्माणि जनयन्ति म-
लास्त्रयः । बाधां कुर्वन्ति रोमाणि
तमाहुंरुपपक्ष्मकम् ॥ ५५६ ॥

वातादि तीनों दोष कुपित होकर पलकोंके बालोंको नेत्रोंके भीतर प्रविष्ट कर देते हैं तब वे बाल नेत्रोंमें घोर बाधा उत्पन्न करते हैं इस रोगको उपपक्ष्म कहते हैं ॥ ५५६ ॥

उपपक्ष्मकी चिकित्सा ।

प्रवृद्धान्तर्मुखं रोमसद्दिणोरुद्धरे-
च्छनैः । सन्देशेनोद्धरेद्दृष्ट्यां पक्ष्म-
रोमाणि बुद्धिमान् ॥ ५५७ ॥

बड़ेहुए और भीतरका घुसेहुए नेत्रोंके बालोंको धीरे २ सदर्श रंत्र (सडासी) से बुद्धिमान् वैद्य निकाल देवे अथवा उनको धीरे२ उखाड देवे ॥ ५५७ ॥

सर्पिषा शतधातैश्च सेचयेद्द्वणरोपणैः ।
यष्टीसिद्धं घृतं सेकात्सद्यो हरति
वेदनाम् ॥ ५५८ ॥

बुद्धिमान् वैद्य सौवार धुलेहुए धीके द्वारा अथवा ब्रणको भरनेवाले घृतोंके द्वारा सेचन करे अथवा मुलैठोंके द्वारा पकाये हुए घृतसे सेचन करे । इस प्रकार करनेसे तत्काल ब्रणकी वेदना जांत हो जाती है ॥ ५५८ ॥

सेचनात्पाचितं छित्वा गैरिकेनाव-
चूर्णयेत् । रसाञ्जनाम्बुना सेकान्कु-
र्याल्लाक्षारसेन तु ॥ ५५९ ॥

यदि सेचन करनेसे वह पकजाय तब छेदन करके गेरूके चूर्णको बुरका देवे । एवरसैतके जलके द्वारा अथवा लाखके रसके द्वारा सेचन करे ॥ ५५९ ॥

द्वयोर्भुवोरधोभागौ पक्ष्मान्तादे-
कमेव च । भागं त्यक्त्वा तु शस्त्रेण
व्यध्येत्तिर्य्यगतं स्थितम् ॥ ५६० ॥

दोनों भौके नीचेके भागवाले पक्ष्मोंके अन्तके एक भागको छोडकर शेष स्थित हुए वे तिर्य्यगत गदको शस्त्रसे छेदे ॥ ५६० ॥

रक्तं वस्त्रेण गृहीयात्स्थिते रक्ते च
सेचयेत् । मुद्गमात्रान्तरैर्भागैर्वन्ध्या-
त्पट्टं ललाटतः ॥ ५६१ ॥

गन्धसे चीरनेपर जो रुधिर निकले उसको एक वस्त्रमें एकत्र करलेवे फिर उसके द्वारा नेत्रोंको सींचे फिर एक मूँगकी बराबर अन्तरको छोडकर मस्तक-पर पट्टी बांधे ॥ ५६१ ॥

सूच्यश्रेणाग्निवर्णेन रोमकूपाणि नि-
र्देहेत् । प्रदेहाः शीतलाः कार्ग्याः
क्रिया पक्ष्मोपरोधनी ॥ ५६२ ॥

सुईके अग्रभागसे रोमोंको उखाडकर अग्नि के द्वारा रोमकूपोंको दग्ध करे पश्चात् शीतल प्रलेपादि एव पक्ष्मोंको उत्पन्न करनेवाली क्रिया प्रयोजन करे ॥ ५६२ ॥

रक्षन्नक्षि दहेत्पक्ष्म तप्तलोहशला-
क्या । पक्ष्मकोपे पुनर्नैव कदाचिद्गो-
मसम्भवः ॥ ५६३ ॥

नेत्रोंकी रक्षा करता हुआ पलकेको तप्त लोहेकी सलाईसे दग्ध करे इस प्रकार करनेसे फिर कभी रोमोंकी वृद्धि नहीं होती है ॥ ५६३ ॥

अथ सशल्यनेत्ररक्षण ।

छवत्यश्रु च यन्नेत्रं वृत्तं लोहितराजि-
भिः । निमिषोन्मेषणाऽशक्तिं सश-
ल्यं तं विनिर्दिशेत् ॥ ५६४ ॥

जिसके नेत्रोंमेसे सदैव आँसू बहा करै, तथा लाल २ गोल रेखा नेत्रोंमें दीखे और नेत्र खुलने तथा बंद होनेमे असमर्थ हो तो उसको सशल्यनेत्र जानना ॥ ५६४ ॥

सशल्यनेत्रकी चिकित्सा ।

नेत्रे त्वभिहितं कुर्याच्छीतमाश्च्यो-
तनं हितम् । अन्तः स्त्रीस्तन्यसेकश्च
रक्तमोक्षश्च शस्यते ॥ ५६५ ॥

सशल्य अर्थात् चोटके लगनेसे उत्पन्न हुए नेत्र-
रोगमें शीतल आश्च्योतन करे । नेत्रके भीतर स्त्रीके
दूधको डाले और दृपित रुधिरको निकालदेवे ॥ ५६५ ॥

दृष्टिप्रसादजननं विधिमाशु कुर्या-
त्स्निग्धैर्हिमैश्च मधुरैश्च तथा प्रयो-
गैः ॥ स्वेदाग्निधूमभयशोकरुजाभि-
घातैरव्याहताभपि तथैव भिषक्
चिकित्सेत् ॥ ५६६ ॥

दृष्टिके प्रसन्न करनेवाली विधिका शीघ्र प्रयोग
करे, एवं स्निग्ध, शीतल और मधुर औषधि प्रयोग
करे । तथा स्वेद, अग्नि, धुआँ, भय, शोक और
अन्यान्य प्रकारके आगंतुक कारणोंसे जिसके नेत्र
पीडित हों तो उसकी भी इसी प्रकार चिकित्सा
करे ॥ ५६६ ॥

आगन्तुदोषं प्रसमीक्ष्य कार्यं वक्रो-
ष्मणा स्वेदनमादितस्तु । आश्च्यो-
तनं स्त्रीपयसा तु सद्यो यच्चापि पित्त-
क्षतजापहं स्यात् ॥ ५६७ ॥

प्रथम आगन्तुकदोषोंको विचार करके मुखकी
वाफसे नेत्रोंको सेंके, फिर तत्काल स्त्रीके दूधके द्वारा
आश्च्योतन करे । एव पित्त और क्षतको दूर करने-
वाली औषधियोंके द्वारा आश्च्योतन करे ॥ ५६७ ॥

सूर्योपरागाम्बरविशुदादिविलोच-
नेनोपहतेक्षणस्य । सन्तर्पणं स्निग्ध-
हिमादिकार्यं सायं निषेव्यास्त्रिफ-
लाप्रयोगाः ॥ ५६८ ॥

जिसकी दृष्टि सूर्य, दिशाओंकी लाली और
विजली आदि दीप्त पदार्थोंको देखनेसे नष्ट होगई हां
उसके नेत्रोंको स्निग्ध और शीतलादि पदार्थोंके द्वारा
सन्तर्पण करे एवं सन्ध्याके समय त्रिफलेको सेवन
करे ॥ ५६८ ॥

निशाब्दत्रिफलादावीसितामधुसम-
न्वितम् । अभिघाताक्षिशूलघ्नं ना-
रीक्षीरेण पूरणम् ॥ ५६९ ॥

हलदी, नागरमोथा, त्रिफला, दारुहलदी, मिश्री
और शहद इन सबको एकत्र स्त्रीके दूधमें पीसकर
नेत्रोंमे भरनेसे अभिघातजन्य नेत्रशूल दूर होता है
॥ ५६९ ॥

उत्कटाङ्कुरजस्तद्वत्स्वरसो नेत्रपूरण-
म् ॥ ५७० ॥

उत्कटेरेके अंकुरोंके स्वरसको नेत्रोंमे भरनेसे
नेत्राभिघातरोग दूर होता है ॥ ५७० ॥

वटपत्रपुटे क्षितं कलिङ्गं सघृतं पचे-
त् । तद्रसस्तर्पणे चाक्षणोरेवं स्युर्जाङ्ग-
ला रसाः ॥ ५७१ ॥

बडके पत्तोंके दोनेमेसे इन्द्रजौ और घीको रख-
कर पुटपाककी विधिसे पकावे । फिर उसका रस
निकालकर नेत्रोंमे भरे अथवा जंगल प्रदेशके जी-
वोंके रसको नेत्रोंमे भरे तो नयनाभिघातरोग दूर
होता है ॥ ५७१ ॥

आजं घृतं क्षीरपात्रं मधुकं सोत्पला-
नि च । जीवकर्षभकौ मेदा पिष्ट्वा सर्पि-
र्विपाचयेत् ॥ सर्वनेत्राभिघातेषु स-
र्पिरेतत्प्रशस्यते ॥ ५७२ ॥

बकरीका घी, बकरीका दूध, मुलैठी, कमल,
जीवक, ऋषभक और मेदा इनको एकत्र पीसकर
उत्तम विधिसे घृतको पकावे । यह घृत-सर्वप्रकारके
नेत्राभिघातरोगोंमे हितकारी है ॥ ५७२ ॥

सितमरिचनागरकेशरनीलोत्पलक-
ल्कवर्तिता वर्तिः । शमयति सततं
निद्रां सूर्यस्तमश्चन्द्रलेखेव ॥ ५७३ ॥

भूरी मिर्च, नागकेशर और नीलकमल इन सबको एकत्र पीसकर यत्नी बनावे । इस वर्तीको नेत्रोंमें लगानेसे निरन्तरकी निद्रा इस प्रकार दूर होती है, जिस प्रकार सूर्य और चन्द्रमाकी कान्तिसे अन्धकारका समूह नष्ट होजाता है ॥ ५७३ ॥

बृहतीफलसैन्धवयष्टीमधुकल्कीकृतै-
र्नस्यम् । अतिविततामपि सततां
निद्रामिव सततं हन्यात् ॥ ५७४ ॥

बड़ीकटेरीके फल, सैन्धानमक और मुलैठी इनको एकत्र पीसकर कल्क बनावे । इस कल्कके द्वारा नस्य देनेसे निरन्तर आती हुई निद्रा तत्काल नष्ट हो जाती है ॥ ५७४ ॥

क्षौद्राश्वलालासंवृष्टैर्मरिचैर्नेत्रमञ्ज-
येत । अतिनिद्रा शमं याति तमः
सूर्योदय्यादिव ॥ ५७५ ॥

गहद, घोडेकी लार और काली मिरच इनको एकत्र पीसकर नेत्रोंमें लगानेसे अत्यन्त घोर निद्रा इस प्रकार शमन होजाती है जिस प्रकार सूर्योदयसे अन्धकारका समूह नष्ट हो जाता है ॥ ५७५ ॥

इति श्रीवंगसेने भापाटीकायां नेत्ररोगनिदान
चिकित्साधिकार समाप्त ॥ ६७ ॥

अथ शिरोरोगाधिकार ।

शिरोरोगका निदान ।

शिरोरोगास्तु जायन्ते वातपित्तक-
फैस्त्रिभिः । सन्निपातेन रक्तेन क्षये-
ण कृमिभिस्तथा ॥ १ ॥ सूर्याव-
र्तानन्तवातशंखकार्द्धावभेदकैः । ए-
कादशविधस्यास्य लक्षणानि प्र-
क्ष्यते ॥ २ ॥

वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोष तथा सन्निपात रक्त दुष्टमे, धातुक्षय और कृमि इन सात कारणोंसे सात, सूर्यावर्त १ अनन्तवात १, अर्धावभेदक १ और शंखक १ इन भेदोंसे शिरोरोग ग्यारह प्रका-
रका है । अब इनके पृथक् पृथक् लक्षण कहते हैं ॥ १ ॥ २ ॥

वातजशिरोरोगके लक्षण ।

यस्याऽनिमित्तं शिरसो रुजश्च भव-
न्ति तीव्रा निशि चातिमात्रम् ।
बन्धोपतापप्रशमश्च यत्र शिरोऽभि-
तापः स समीरणेन ॥ ३ ॥

जिस मनुष्यके शिरमें विनाकारण ही तीव्र पीडा हो और रात्रिमें अधिक बढ़जाय तथा बांधने और सेकनेसे कम हो जाय तो उसको वातजशिरो-
ऽभितापरोग कहते हैं ॥ ३ ॥

पित्तजशिरोरोगके लक्षण ।

यस्योष्णमङ्गारचितं तथैव धूप्येच्छि-
रो दह्यति चाक्षिनासा । शीतेन
रात्रौ च भवेत्क्षयश्च शिरोऽभितापः
स तु पित्तकोपात् ॥ ४ ॥

जिसका शिर अगारोंसे तपाये हुएके समान गरम हो तथा नेत्र और नाकमें दाह हो और रात्रिमें शीत-
के कारण शान्ति हो जाय तो उसको पित्तजशिरो-
ऽभिताप रोग कहते हैं ॥ ४ ॥

श्लैष्मिकशिरोरोगके लक्षण ।

शिरो भवेद्यस्य कफोपदिग्धं गुरुप्र-
तिष्ठन्मथो हिमश्च । शूनाक्षिकूटं
वदनश्च यस्य शिरोऽभितापः स कफ-
प्रकोपात् ॥ ५ ॥

जिस मनुष्यका शिर कफसे भराहुआसा मालूम हो, भारी जकडासा और शीतल हो तथा मुख और नेत्र सूजजाय तो उसको कफजशिरोभितापरोग कहते हैं ॥ ५ ॥

त्रिदोषजशिरोरोगके लक्षण ।

शिरोऽभितापे त्रितयप्रवृत्ते सर्वाणि
लिङ्गानि समुद्भवन्ति ।

त्रिवेपज शिरोऽभितापरोगमे तीनो दोषोंके लक्षण प्रकट होते है ।

रक्तजशिरोरोगके लक्षण ।

रक्तात्मकः पित्तसमानलिङ्गः स्पर्शा-
सहत्वं शिरसो भवेच्च ॥ ६ ॥

रक्तजशिरोऽभितापरोगमे सम्पूर्ण लक्षण पित्तज-
शिरोरोगके समान होते है । तथा मस्तक स्पर्श
करनेसे अत्यन्त दुखता है ॥ ६ ॥

**रसादिधातुक्षयजन्यशिरोरोगके
लक्षण ।**

असृग्बसाश्लेष्मसमीरणानां शिरों-
गतानामिह संक्षयेण । क्षवप्रवृत्तिः
शिरसोऽभितापः कष्टो भवेदुग्रजो-
ऽतिमात्रम् ॥ संस्वेदनच्छर्दनधूमन-
स्यैरसृग्विमोक्षैश्च विवृद्धिमेति ॥ ७ ॥

शिरमे अत्यन्त तीव्र पीडा होती हो और वह सेक-
नेसे, वमन करानेसे, धूम्रपानसे, नस्य देनेसे और रुधिर-
को निकलवानेसे अधिक बढ़जाती हो तो उस
पीडाको शिरमे रहनेवाली चरबी, कफ, वात और
रुधिरके अत्यन्त क्षय होनेसे हुई जाननी चाहिए। वह
शिरोरोग कष्टसाध्य है । इस क्षयजशिरोरोगमें छीक
अधिक आवे, मस्तकमे अभिताप और मस्तकमे सुई
चुमाने सरीखी कष्ट देनेवाली पीडा होती है, नेत्रों-
की पुतली वारम्बार फिरती है । मूर्च्छा और अंगोमे
गलानि होती है ॥ ७ ॥

कृमिजशिरोरोगके लक्षण ।

निस्तुद्यते यस्य शिरोऽतिमात्रं सं-
भक्ष्यमाणं स्फुरतीव चान्तः । घ्रा-
णाच्च गच्छेद्गुधिरं सपृथं शिरोऽभि-
तापः कृमिभिः स घोरः ॥ ८ ॥

जिसका शिर सुईचुभाने खरीखी पीडासे अत्यन्त
दुखता है तथा कीड़ोंके द्वारा मस्तकको भीतरसे खा
लेनेसे मस्तक भीतरसे फडकता है और नाकके द्वारा
रुधिर, राध और कृमि गिरते है तो उसको कृमिज-
शिरोरोग कहते है। यह शिरोरोग बड़ा भयङ्कर है ८॥

सूर्यावर्तके लक्षण ।

सूर्योदयं या प्रतिमन्दमन्दमक्षिश्रु-
वं रुक्समुपैति गाढम् । विवर्द्धते चां-

शुभता सहैव सूर्यापवृत्तौ विनिव-
र्त्तते च ॥ ९ ॥ शक्तिन शान्तिं लभते
कदाचिदुष्णेन जन्तुः सुखमाप्नुयाद्वा ।
सर्वात्मकं कष्टतमं विकारं सूर्याप-
वृत्तं तमुदाहरन्ति ॥ १० ॥

सूर्यके उदय होनेपर जो धीरे २ आखों और
भौओमे मंद २ पीडा होती है और वह ज्यो २
सूर्य आकाशमे अधिक चढता जाता है त्यों २
अधिक बढ़ती जाती है और जब दो प्रहरके पश्चात्
सूर्य पश्चिममे ज्यो ज्यो छिपता जाता है त्यों त्यों
यह पीडा शांत होती जाती है और जब सूर्य अस्त
होजाताहै तब यह पीडाभी बिल्कुल शांत होता जाती
है । किसीसमय यह पीडा शीतसे शांत होती है और
किसी समय उष्णतासे शांत होती है। इसको सूर्या-
वर्त्तरोग कहते है । यह रोग तीनो दोषोंके प्रकापसे
होता है और अत्यन्त कष्टसाध्य है ॥ ९ ॥ १० ॥

अनन्तवातके लक्षण ।

दोषाः प्रदुष्टास्त्रय एव मन्यां संपीड्य
गाढं सरुजां सुतीव्राम् । कुर्वन्ति
चाक्षिभ्रुवि शंखदेशे स्थितिं करो-
त्याशु विशेषतस्तु ॥ ११ ॥ गण्डस्य
पार्श्वे तु करोति कम्पं हनुग्रहं लोच-
नजांश्च रोगान् । अनन्तवातं तमुदा-
हरन्ति दोषत्रयोत्थं शिरसो विका-
रम् ॥ १२ ॥

दूषित हुए वातादि तीनो दोष मन्यानाडीको अत्य-
न्त जकडकर अपने अपने स्वभावके अनुसार व्यथा
और भारीपन आदि तीव्र वेदनाको उत्पन्न करते
है । यह वेदना तत्काल आखोंमें, भौओमे और कन-
पटियोंमे स्थित होतीहै तथा विशेष करके गण्डस्थान-
मे स्थित होती है । यह वहां स्थित होकर कम्प,
हनुग्रह तथा नेत्ररोगोंको उत्पन्न करती है इसको
अनन्तवात कहते है । यह नेत्ररोग तीनो दोषोंके
प्रकापसे होता है ॥ ११ ॥ १२ ॥

अर्द्धाविभेदके निदान और लक्षण ।

रुक्षाशनाध्यशन-प्राग्वातावश्याय
मैथुनैः । वेगसन्धारणायामव्याया-

मैः कुपितोऽनिलः ॥ १३ ॥ केवलः
सकफो वाद्धं गृहीत्वा शिरसो वली ।
मन्याभ्रशंखकर्णाक्षिललाटाद्धंऽतिवे-
दनाम् ॥ १४ ॥ शस्त्राशननिभां कु-
र्यात्तीव्रां सोऽर्द्धावभेदकः । नयनं
वाथवा श्रोत्रमतिवृद्धो विनाशये-
त ॥ १५ ॥

अत्यन्त सूखे पदार्थोंको भक्षण करनेसे, अधिक
भोजन करनेसे, भोजनके ऊपर भोजन करनेसे, संमु-
खकी पवनको सेवन करनेसे, बर्फ या तुपारका सेवन
करनेसे, अधिक मैथुन करनेसे, मल मूत्रादिके वेगोंको
रोकनेसे, अधिक श्रम और कसरत करनेसे इत्यादि
कारणोंसे केवल वायु कुपित होकर अथवा कफसंयुक्त
प्रबल वायु कुपित होकर आधे शिरको ग्रहण करके
मन्यानाडी, भौंह, कनपटी, कान, नेत्र और मस्तक
इनमें एकओरसे पीडा करती है । वह पीडा शस्त्र
और वज्रसे काटने व चीरनेके समान होती है ।
उसको संस्कृतमें अर्धावभेदक और हिन्दी भाषामें
आवासीसी कहते हैं । यह रोग जब अधिक बढ़जाता
है तब एक ओरके कान या नेत्रको नष्ट कर देता है
॥ १३-१५ ॥

शंखके लक्षण ।

रक्तपित्तानिला दुष्टाः शंखदशे
विमूर्छिताः । तीव्रहृग्दाहरागं हि
शोथं कुर्वन्ति दारुणम् ॥ १६ ॥ सशि-
रो विषवद्रेगी निरुध्याशु गलं त-
था । त्रिरात्राज्जीवितं हन्ति शंख-
को नामतः परम् । त्र्यहाज्जीविनि
भैषज्यं प्रत्याख्यायाऽस्य कारये-
त् ॥ १७ ॥

दूषित हुए पित्त, रुधिर और वान कनपटीमें अत्य-
न्त पीडा, भयकर दाहयुक्त लाल वर्णकी सूजनको
उत्पन्न करते हैं । वह विषके वेगके समान बहुत तीव्र
बढ़कर मस्तक और गलेको जकड देती है । यह शंख-
कुरोग तीन दिनमें ही मनुष्यको मारदेता है । कदाचित्
तीनही दिनमें उत्तम वैद्यकी चिकित्सा करनेसे रोगी

वचभी जाता है, किन्तु वैद्यको चाहिए कि, प्रथम कह-
कर और निश्चय करके चिकित्सा करे ॥ १६ ॥ १७ ॥

शिरोरोगकी चिकित्सा ।

वातिकेशिरसो रोगे स्नेहस्वेदान्सना-
वनान् । पानाहारोपनाहांस्तु कुर्या-
द्वातामयापहान् ॥ १८ ॥

वातजन्यशिरोरोगमें स्नेहन, स्वेदन और नस्य-
कर्म प्रयोग करे तथा वातनाशक पान, आहार और
उपनाह ये सब करे ॥ १८ ॥

पिण्डोपनाहस्वेदश्च धन्वमांसकृतो
हितः । वातघ्नदशमूलादिसिद्धक्षी-
रेण सेचनम् ॥ १९ ॥

जागलप्रदेशके जीवोंके मांसके द्वारा पिण्डोपनाह
और स्वेदादि प्रदान करे । तथा वातनाशक औषधि-
योंके द्वारा और दशमूलादि औषधियोंके द्वारा दूधको
पकाकर सेचन करे ॥ १९ ॥

धूमं चास्य यथा कालं योजयेत् स्नै-
हिकं भिषक् ॥ २० ॥ पानाभ्यञ्जन-
नस्येषु वस्तिकर्मणि सेचने । विद-
ध्यात्रैवृतं तैलं बलातैलमथापि वा २१

वैद्य यथा समय स्नैहिक पदार्थोंके द्वारा धूम्रपान
करावे तथा पान, अभ्यजन, नस्य, वरितकर्म
और सेचन इनमें त्रिवृत्तल अथवा बलातैल प्रयोग
करे ॥ २० ॥ २१ ॥

मुहान्माषान्कुलित्थांश्च खादेच्च नि-
शि केवलान् । कटुकोष्णांससर्पिष्का-
नुष्णं वापि पिबेत्पयः ॥ २२ ॥

रात्रिके समय केवल मूंग, उडद और कुलथी इन-
को सेवन करे अथवा कटु औषधियोंके द्वारा सिद्ध
क्रिये हुए दूधमें घृत मिलाकर सदोषण करके पान
करे ॥ २२ ॥

पिबेद्वा पयसा तैलं तत्कालं चाति
मानवः । पञ्चमूलीशृतं क्षीरं नस्ये
दद्याच्छिरोगदे ॥ २३ ॥

अथवा दूधमें तेल डालकर पीवे और तत्काल पंच-
मूलकी औषधियोंके द्वारा पकाये हुए दूधकी नस्य
देवे ॥ २३ ॥

कुष्ठमैरण्डमूलश्च लेपात्काञ्जिकपेपि-
तम् । शिरोऽर्त्ति नाशयत्याशु पुष्पं
वा मुचुकुन्दजम् ॥ २४ ॥

कूठ और अण्डकी जड़को काँजीमें पीसकर लेप करनेसे अथवा मुचुकुन्दके फूलोको पीसकर लेप करनेसे शिरकी पीडा शांत होती है ॥ २४ ॥

देवदारुनतं कुष्ठं नलदं विश्वभेषज-
म् । लेपः काञ्जिकसंपिष्टस्तैलयुक्तः
शिरोऽर्त्तिनुत् ॥ २५ ॥

देवदारु, तगर, कूठ, बालछड और सोठ इन सबको एकत्र काजीमें पीसकर तेलमें मिलाकर लेप करनेसे शिरकी पीडा शांत होती है ॥ २५ ॥

शिरोवस्ति ।

वातकोपभयाद्वा नोक्तं रक्तावसेच-
नम् । आशिरोव्यापनश्चर्म कृत्वा-
ष्टांगुलमुच्छ्रितम् । तेनावेष्ट्य शि-
रोऽधस्तान्मापकल्केन लेपयेत् ॥२६॥
निश्चलस्थोपविष्टस्य तैलैरुष्णैः प्र-
रयेत् । धारयेद्दारुजः शान्तेर्यामं
यामार्द्धमेव वा ॥ २७ ॥ शिरोव-
स्तिर्जयत्येष शिरोरोगं मरुद्भवम् ।
हनुमन्याक्षिकर्णात्तिमर्दितं मूर्द्धक-
म्पनम् ॥ २८ ॥

वातके प्रकोपके भयसे यहाँ रक्तमोक्षण करना नहीं कहा है । जिससे समस्त मस्तक ढक जावे इतना लम्बा और आठ अंगुल चौड़ा चमड़ा लेकर उसको मस्तकसे बाँधदेवे और उसके नीचेके जोड़ोमें उडदका चून जलमें सानकर लगादेवे । फिर रोगीको निश्चल बैठाकर सुहाता सुहाता तिलका तेल उस चमड़ेमें भर देवे । जबतक पीडा शांत नहीं हो तबतक अथवा एक प्रहरतक या चार घडीतक उसको ऐसाही बैठा रहने देवे । यह शिरोवस्ति-वातजशिरो-रोग, हनुग्रह, मन्यास्तम्भ, नेत्रकी पीडा, कानकी पीडा, आर्दित और मस्तककम्पको शीघ्रही दूर करत है ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥

तैलनापर्य्य मूर्द्धानं पञ्चमात्रा शता-
नि च । तिष्ठेच्छ्रेष्माणि पित्तेऽष्टौ दश
वाते शिरांगदे ॥ २९ ॥

कफजन्यशिरोरोगमें पांचसाँ ५०० मात्रापर्य्यत तेल धारण करना चाहिये । पित्तजन्यशिरोरोगमें आठसाँ ८०० मात्रापर्य्यत तेल धारण करना चाहिये और वातजन्यशिरोरोगमें एकहजार १००० मात्रापर्य्यत तेलको धारण करे ॥ २९ ॥

एष एव विधिः कार्य्यस्तथा कर्णा-
क्षिपूरणे । विनाभोजनमेवैष शिरो-
वस्तिः प्रयुज्यते ॥ ३० ॥ घटिका-
धिक्रयामैकं वृद्धवैद्योपदेशतः । प्र-
योज्यस्तु शिरोवस्तिः पञ्चाहं सप्त
एव च ॥ ३१ ॥

यही विधि कर्ण और नेत्रोंके पूर्ण करनेमें करनी चाहिये । शिरोवस्ति भोजनमें पहिले करनी चाहिये वृद्धवैद्योके उपदेशसे चार घडी या छ. घडीतक पांच दिन या सात दिन शिरोवस्ति प्रदान करे ॥ ३० ॥ ३१ ॥

ततः स्नेहमपनीय कर्णतो वस्तिव-
न्धनं विमोच्य शिरःस्कन्धग्रीवा-
पृष्ठललाटान् मुखश्च पाणिभ्यां मृ-
द्वीयात् । ततः सुखोष्णजलेन परि-
षिक्तगात्रः शालिषष्टिकादिभिर्जाङ्ग-
लानूपरसैर्दाडिमास्त्रैर्मात्रया भोज-
येत् ।

फिर एक कानकी ओर शिर नवाकर तेल निकाल देवे और वस्तिके चमड़ेको खोलकर शिर, स्कन्ध, ग्रीवा, पृष्ठ, ललाट और मुखको हाथोंसे मर्दन करे । फिर मन्दोष्ण जलसे स्नान कराकर शालि और साठी आदिके भातको, तथा जांगल और अनूपप्रदेशके जीवोंके मांस रसको अनार आदिके रससे अम्ल करके उचित मात्रासे भोजन करावे ।

मयूरघृत ।

हेमन्तकाले शिशिरे वसन्ते सेव्यं
हि मायूरमुशान्ति सर्पिः । उष्णो हि

वर्ही विषभोजनश्च वर्षाशरद्व्रीष्ममु-
खेप्वपथ्यः ॥ ३२ ॥

हेमन्तऋतु, शिशिरऋतु और वसन्तऋतुमें मयूरघृतका सेवन अत्यंत हितकारी है । किंतु मोर गरम और विषभोजन करनेवाला होनेके कारण वर्षा, शरद और व्रीष्मऋतुमें पथ्य नहीं है ॥ ३२ ॥

लघुमयूरघृत ।

दशमूलवलारास्त्रामधुकैस्त्रिफलैः सह।
मयूरं पक्षपित्तान्त्रशकृत्पादास्यव-
र्जितम् ॥ ३३ ॥ जले पक्ता घृत-
प्रस्थं तास्मिन् क्षीरसर्म पचेत् । मधु-
रैः कार्षिकैः कल्कैः शिरोरोगादि-
तापहम् ॥ ३४ ॥ कर्णनासाक्षिजि-
ह्वास्यगलरोगविनाशनम् । मायूर-
मिति विख्यातमूर्द्धजन्तुगदापहम् ॥ ३५ ॥

दशमूल, तिरैटी, रायमन, मुलैठी और त्रिफला इन सब समान भाग औषधियोंके साथ एक मयूरको उसके पक्ष, पित्त, श्रातें, मल, पाँव और मुखको अलग करके जलमें पकावे । जब पकते २ जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेवे फिर उस काथमें एक प्रस्थ घी और एक प्रस्थ दूध एव एक २ तोला मधुरादिगणकी औषधियोंका कल्क डालकर पकावे । यह घृत-शिरोरोगकी घोर पीडा, कर्णरोग, नासारोग, नेत्ररोग, जिह्वारोग और गलरोगको दूर करता है । इसको मयूरघृत कहते हैं, यह सम्पूर्ण ऊर्ध्वजन्तुरोगोंका नाश करता है ॥ ३३ ॥ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

दशमूलादिना तुल्यो मयूर इह गृ-
ह्यते । अन्ये त्वाकृतिमानेन मयू-
रग्रहणं विदुः ॥ एषां जलद्रोणे पा-
दावशेषः काथः कर्तव्यः मधुराणि
च जीवनीयानि दश ॥ ३६ ॥

इस घृतमें दशमूलकी बराबर मोर लेना चाहिये पर कितने ही वैद्य एक मोरको लेते हैं । काथकी औषधि एक द्रोण जलमें पकानी चाहिये और जब जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेना चाहिये । कल्कके लिये जीवनीयगणकी दश मधुर औषधियां लेनी चाहिये ॥ ३६ ॥

महामयूरघृत ।

एतेनैव कषायेण घृतप्रस्थं विपाचये-
त् । चतुर्गुणेन पयसा कल्कैरेभिश्च
कार्षिकैः ॥ ३७ ॥ समङ्गाचविकाभा-
ङ्गीकाशमरीकुक्कुटाह्वयैः । आत्मगुप्ता-
महामेदातालखर्जूरमुस्तकैः ॥ ३८ ॥
मृणालविश्वखर्जूरमधुकैश्च सजीव-
कैः । शतावरीविदारीक्षुबृहतीशा-
रिवायुगैः ॥ ३९ ॥ मूर्वाश्वदंष्ट्राशा-
र्दूलशृङ्गाटककशेरुकैः । स्थिरामल-
करास्नाभिः सूक्ष्मैलाशटिपौष्करैः
॥ ४० ॥ पुनर्नवालुगाक्षीरीकाकां-
लीद्वयवासकैः ॥ मधुकाक्षोटवाताम-
गुञ्जानाभिश्चुकरैरपि ॥ ४१ ॥ द्रव्यैरे-
तैर्यथालाभं पूर्वकल्केन साधितम् ।
पाने वस्ती तथाभ्यङ्गे नस्ये चैव प्र-
योजयेत् ॥ ४२ ॥ शिरोरोगेषु सर्वेषु
कासे श्वासेऽतिदारुणे । मन्यादृ-
ष्टिग्रहे शोथे स्वरभेदे तथादिते ॥ ४३ ॥
योन्यसृक्छुक्रदोषेषु शस्तं वन्ध्यासु-
तप्रदम् । महामायूरमित्येतद्घृतमा-
त्रेयपूजितम् ॥ ४४ ॥

उपर्युक्त दशमूलादि और मयूरके काथमें १ प्रस्थ घृत, चौगुना दूध तथा मजीठ, चव्य, भारगी, कुम्भेर, सेमल, कौल, महामेदा, ताड और खजूर, मुस्तक, कमलकी नाल, सोठ, खजूर, मुलैठी, जीवक, शतावर, विदारीकद, ईख, वही कटेरी, दोनों शारिवा, मूर्वा, गोखुरु, चीता, सिंघाडे, कशेरु, शालिपर्णी, आमले, रास्ना, छोटी इलायची, कचूर, पोहकरमूल, पुनर्नवा, वंशलोचन, काकोली, क्षीरकाकोली, अडूसा, महुआ, अखरोट, बदाम, बुंधुची, कस्तूरी और गठिवन ये सब औषधियां यथालाभ दो २ तोले लेकर कल्क बनाकर के डाल देवे । फिर यथाविधिसे घृतको पकावे । इस घृतको पान, वस्तिकर्म, अभ्यंग और नस्य आदि कर्मोंमें प्रयोग करे । यह घृत सर्वप्रकारके शिरोरोग, खांसी, श्वास, दारुण मन्यास्तम्भ, दृष्टिरोग, सूजन, स्वरभेद, अर्दित, योनिसे रुधिरका गिरना और सर्व

प्रकारके शुक्रदोष दूर करता है । और वन्ध्यास्त्रीका पुत्र प्रदान कर देता है । यह महामायूरघृत आत्रेय करके पूजित है ॥ ३७-४४ ॥

बलादिघृतमण्डूर ।

बलाबिल्वशृते क्षीरे घृतं मण्डं विपाचयेत् । तस्य शुक्तिं प्रकुञ्चं वा नस्य शीर्षगतेऽनिले ॥ ४५ ॥

खिरंटी और बेलगिरी इनके द्वारा पकाये हुए दूधमें घृत और घृतका मण्ड डालकर पकावे । फिर उसमेंसे दो तोले या चार तोले घृत लेकर नस्य देवे तो वातजन्य शिरोरोग दूर होता है ॥ ४५ ॥

पित्तजशिरोरोगकी चिकित्सा ।

पित्तात्मके शिरोरोगे स्निग्धं सम्यग्विरेचयेत् । मृद्धीकात्रिफलेक्षूर्णा रसैः क्षीरैर्घृतैरपि ॥ ४६ ॥ शर्कराक्षीरसलिलैः शिरश्च परिषेचयेत् । सर्पिषः शतधौतस्य शिरसा धारणं हितम् ॥ ४७ ॥

पित्तजन्यशिरोरोगमें स्निग्ध औषधियोंके द्वारा विरेचन करावे । तथा दाख, त्रिफला और ईशका रस, दूध, घी इनके द्वारा या दूधमें तथा जलमें खोंड मिला कर उसके द्वारा शिरपर सेचन करे । एव सौवार धोये हुए घृतको शिरपर मालिश करनी चाहिए । ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

निमज्जनश्च शिरसः शीतले शस्यते मुहुः ॥ ४८ ॥

एव वारंवार शीतलजलमें शिरको डुबोकर स्नान करना चाहिये ।

कमलोत्पलपद्मानां शीतानां चन्दनाम्बुभिः । स्पर्शः स्निग्धश्च पवनः सेव्यो दाहार्त्तिनाशनः ॥ ४९ ॥

कमल, कमोदिनी, लालकमल, अन्यान्य शीतल और सुगन्धित पदार्थ और चन्दन इनको पीसकरके जलमें मिलाकर उससे शिरसे स्नान करे एव स्निग्ध स्पर्शवाले और शीतल पदार्थ तथा शीतल पवनका सेवन करे इससे दाह और पीड़ा ज्ञान्त होती है ४९

चन्दनोशिरियष्ट्याह्वबलाव्याघ्रनखात्पलैः । क्षीरपिष्टैः प्रदेहः स्याच्छीर्त्तैर्वा परिषेचनम् ॥ ५० ॥

चन्दन, खम, मुलैठी, खिरंटी, नखी और कमल इनको एकत्र दूधमें पीसकर लेप करे अथवा इनको शीतल जलमें मिलाकर परिषेचन करे ॥ ५० ॥

मृणालविसशाल्कचन्दनोत्पलकेशरैः । स्निग्धैः शीतैः शिरो दिह्यात्तद्वदामलकोत्पलैः ॥ ५१ ॥

कमलकी नाल, कमलकी जड़, भसीडा, चन्दन, कमल और कमलकी केसर इनको एकत्र पीसकर शिरपर लेप करे अथवा अन्यान्य स्निग्ध और शीतल पदार्थोंको पीसकर शिरपर लेप करे । अथवा आमले और कमल इनको जलमें पीसकर लेप करे या इसी जलके द्वारा सेचन करे ॥ ५१ ॥

यष्ट्याह्वचन्दनानन्ताक्षीरसिद्धं हितं घृतम् । नावनं शर्कराद्राक्षामधुकैश्चापि पित्तजे ॥ ५२ ॥

मुलैठी, चन्दन और अनन्तमूल इनके कल्कक द्वारा दूधमें घृतको पकाकर उसकी नस्य देना अथवा मिश्री, दाख और मुलैठी इनको पीसकर नस्य देना हितकर है ॥ ५२ ॥

त्वक्पत्रशर्करापिष्टा नावनं तंदुलांबुना । क्षीरसर्पिर्हितं नस्यं जाङ्गला वा शुभा रसाः ॥ ५३ ॥

दालचीनी, तेजपात और मिश्री इनको चावलोके जलमें पीसकर नस्य देवे । या दूध और घृत मिलाकर नस्य देवे । अथवा इसमें जांगलप्रदेशके जीवोंके मांसका रस भी हितकारी है ॥ ५३ ॥

पद्मचन्दनकर्पूरं नागरं नीलमुत्पलम् । प्रदेहः सघृतः कार्य्यः शिरःशूलहरो नृणाम् ॥ ५४ ॥

कमल, चन्दन, कपूर, सोठ और नीलकमल इनको एकत्र पीसकर घृतमें मिलाकर लेप करनेसे शिरकी पीड़ा दूर होती है ॥ ५४ ॥

रुधिरजन्यशिरोरोगकी चिकित्सा ।

रक्तजे पित्तवत्सर्वं भोजनालेपसेचन-
म् । शीतोष्णयोश्च विन्यासो विशे-
षाद्रक्तमोक्षणम् ॥ ५५ ॥

रक्तजशिरोरोगमें भोजन, लेप और सेचन आदि
सम्पूर्ण उपचार पित्तजशिरोरोगके समान करने
चाहिए । विशेषकर शीतल और उष्ण मिले हुए कर्म
करे और रक्तमोक्षण करावे ॥ ५५ ॥

कफजशिरोरोगकी चिकित्सा ।

कफजे लेपनं स्वेदो रूक्षोष्णैः पाच-
नात्मकैः । तीक्ष्णावपीडधूमाश्च
तीक्ष्णाश्च कवला हिताः ॥ ५६ ॥

कफजशिरोरोगमें रुखे, गरम और पाचन औष-
धियोंके द्वारा लेप और स्वेद देना तथा तीक्ष्ण अव-
पीडन, तीक्ष्ण धूम्रपान और तीक्ष्ण कवट प्रयोग
करना हितकारी है ॥ ५६ ॥

भुञ्जीत कटुतीक्ष्णोष्णैर्युषैस्त्रिकोपसं-
भृतैः । पुराणयवगोधूमाञ्छुष्कमूल-
कसंयुतान् ॥ ५७ ॥

कटु, तीक्ष्ण, उष्ण और तिक्त औषधियोंके साथ
पुराने जौ, गेहूँ और सूखी मूली इनका चूष सेवन
करे ॥ ५७ ॥

अच्छश्च पाययेत्सर्पिः पुराणं स्वेदये-
त्ततः । मधूकसारैण शिरः स्विन्नश्चा-
स्य विरेचयेत् ॥ ५८ ॥

प्रथम पुराना स्वेच्छ घृत पान करावे। फिर मधूक-
सारसे शिरको स्वेदित करके विरेचन(नस्य)देवे ५८

हरेणुनतशैलेयमुस्तैलागुरुदारुभिः ।
रास्त्रास्थौणेयनलदै रूक्षोष्णैर्लेपये-
च्छिरः ॥ ५९ ॥

रेणुका, तगर, भूरिछरीला, नागरमोथा, इलायची,
अगर, देवदारु, रास्त्रा, थुनेर और वालछड इनको पीस
कर गरम करके अथवा अन्यान्य रूक्ष और उष्ण
औषधियोंको पीसकरके शिरपर प्रलेप करे ॥ ५९ ॥

सरलागुरुशार्ङ्गष्टादेवकाष्ठैः सरोहि-
पैः । क्षीरापिष्टैः सलवणैः सुखोष्णै-
र्लेपयेच्छिरः ॥ ६० ॥

धूपसरल, अगर, करंज, देवदारु, रोहिसतृण
और सैधानसक इन सबको एकत्र दूधमें पीसकर
कुछ गरम करके सुहाता सुहाता लेप करे ॥ ६० ॥

कृष्णाब्दशुण्ठीमधुकशताह्वोत्पलपा-
चकैः । जलापिष्टैः शिरोलेपः
सद्यः शूलनिवारणः ॥ ६१ ॥

पीपल, नागरमोथा, सोठ, मुलैठी, अतावर, कमल
और चीता इनको एकत्र जलमें पीसकर शिर पर
लेप करनेसे शिरका शूल तत्काल जान होता है ६१॥

यवषष्टिकयोश्चान्नं व्योषं क्षारसम-
न्वितम् । पटोलमुद्गकौलित्थैर्मात्रा-
वद्भोजयेद्रसैः ॥ ६२ ॥

जौ और साठीके चावलोके भातको त्रिकुटेका
चूर्ण और जवाखारका चूर्ण डालकर पटोल, मूँग
और कुलथीके चूषके साथ यथोचित मात्रासे भोजन
करे ॥ ६२ ॥

हरिद्राद्यतैल ।

उभे हरिद्रे पिप्पलयः सरलं देवदारु
च । विडङ्गं चित्रको बिल्वं रोहिष-
स्य च पल्लवाः ॥ ६३ ॥ गन्धं सौव-
र्चलं द्राक्षा मञ्जिष्ठा मधुकं बला ।
वेतसस्य च मूलानि पद्मकोशीरच-
न्दनम् ॥ ६४ ॥ एभिर्विल्वप्रमाणैस्तु
तैलप्रस्थं विपाचयेत् । द्विगुणश्च पयो
दद्यात्सिद्धं तत्रस्यतो जयेत् ॥ ६५ ॥
श्लेष्मजं सन्निपातश्च शीर्षरोगं निय-
च्छति । उपजिह्विकां गण्डमालां
कण्ठशालूकमर्बुदम् ॥ ६६ ॥ विदा-
रिकां मांसपाकं मुखशीर्षगलग्रहम् ।
दन्तचालं हनोः कम्पं तैलमेतन्निय-
च्छति ॥ ६७ ॥

हलदी, दारुहलदी, पीपल, धूपसरल, देवदारु, वायविडंग, चीता, वेलगिरी, रोहिपतृणके पत्ते, गधक, कालानमक, दाख, मजीठ, मुलैठी, खिरैटी, वेतकी जड, पद्माख, खस और चन्दन इन प्रत्येक औषधियोंको चार चार तोले लेकर कल्क बना करके दो प्रस्थ दूधमे डालकर उसके द्वारा एकप्रस्थ तेलको पकावे इस तेलकी नस्य देनेसे कफजनित और त्रिदो-पजन्य शिरोरोग नष्ट होता है । यह तेल-उपजिह्वा, गण्डमाला, कण्ठशालूक, अर्बुद, विदारिका, मांसपाक, मुख, शिर और गलेकी पीडा, दन्तचलन, हनुकम्प और अन्यान्य अनेक ऊर्ध्वज रोगोंको दूर करता है ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥

सन्निपातभवे कार्थ्या सन्निपातहरी क्रिया । पुराणसर्पिषः पानं विशेषेणादिशान्ति हि ॥ ६८ ॥

सन्निपातजनित शिरोरोगमे सन्निपातनाशक चिकित्सा करनी चाहिये । विशेष करके इसमे पुराने घृतका पान कराना हितकारी है ॥ ६८ ॥

श्यामानागरमिश्रेण श्वेतस्यन्देन तत्क्षणात् । संप्रलेपात्प्रणश्यन्ति त्रिदोषोत्थाः शिरोऽर्तयः ॥ ६९ ॥

श्यामा (अनन्तमूल), सोठ और सफेद अपराजिता इनको एकत्र पीसकर प्रलेप करनेसे त्रिदोषजनित शिरकी पीडाएँ तत्काल शांत होती है ॥ ६९ ॥

**त्रिकटुकपुष्कररजनीरास्त्रासुरदारु-
तुरगगन्धानाम् । काथः शिरोऽर्त्ति-
जालं नासा पीतो निवारयति ॥ ७० ॥**

त्रिकुटा, पोहकरमूल, हलदी, रायसन, देवदारु और असगन्ध इन सबका काथ बनाकर उसको नासिकाके द्वारा पान करनेसे शिरकी पीडा शांत होती है ॥ ७० ॥

**नागरकल्काविमिश्रं क्षीरं नस्येन यो-
जितं पुंसाम् । नानादोषोद्भूतां
शिरुरुजां हन्ति तीव्रतराम् ॥ ७१ ॥**

सोठके कल्कको दूधमे मिलाकर नस्य देनेसे मनुष्योंके अनेक दोषोंसे उत्पन्न हुआ अत्यन्त उग्र शिरोरोग दूर होता है ॥ ७१ ॥

**संक्षुण्णाः शर्कराद्दशा दाडिमीक-
लिकाः शुभाः । नावने योजिताः
सद्यः शिरःशूलहराः पराः ॥ ७२ ॥**

अनारकी उत्तम कलियोंको कूट पीसकर उसमें आधा भाग खोंड मिलाकर नास देनेसे तत्काल शिरकी पीडा शांत होती है ॥ ७२ ॥

**करञ्जशिशुबीजानि पत्रकं शर्कराव-
चाः । सर्वेषां शीर्षरोगाणामेतच्छी-
र्षविरेचनम् ॥ ७३ ॥**

करंज, सहिंजनेके बीज, तेजपात, मिश्री और वच इन सबको एकत्र पीसकर नस्य देनेसे सर्वप्रकारका शिरोरोग दूर होता है ॥ ७३ ॥

**नावनं सगुडं विश्वं पिप्पली वा स-
सैन्धवम् । भुजस्तंभादिरोगेषु सर्व-
मूर्द्धगदेषु च ॥ ७४ ॥**

गुड और सोंठको मिलाकर नस्य देना अथवा पीपल और सैन्धेनमकको मिलाकर नस्य देना भुजस्तम्भादि रोग और सर्वप्रकारके शिरोरोगोंमें उपयोगी है ॥ ७४ ॥

षट्बिन्दुतैल ।

**यष्टीमधुकविडङ्गैः सभृङ्गराजनागरै-
र्धृतं सिद्धम् । षट्बिन्दुनस्यदानादे-
तच्छीषामयं हन्यात् ॥ ७५ ॥ पतनां
शिरोरुहाणां दन्तानां भ्रंशतां दृ-
ढीकरणम् । नेत्रसुपर्णप्रतिमं करोति
वै दृढं बलश्चापि ॥ ७६ ॥**

मुलैठी, वायविडंग, भाँगरा और सोठ इनके कल्कके द्वारा दूधमे घृतको पकावे इस घृतको षट्बिन्दु घृत कहते हैं । इस घृतकी नस्य देनेसे सर्वप्रकारके शिरोरोग, बालोका गिरना और दाँतोंका टूटना आदि अनेक रोग दूर होते हैं । एवं गरुडके समान तीव्र दृष्टि और अत्यन्त दृष्टिके बलकी वृद्धि होती है तथा दात दृढ होते हैं ॥ ७५ ॥ ७६ ॥

षट्बिन्दुतैल ।

**एरण्डमूलं तगरं शताह्वा जीवन्ति-
रास्त्रासह सैन्धवश्च । भृङ्गं विडङ्गं**

मधुयष्टिका च विश्वौषधं कृष्णति-
लस्य तैलम् ॥ ७७ ॥ अजापयस्तैल-
विमिश्रितञ्च चतुर्गुणे भृङ्गरसे
विपक्वम् । षट्बिन्दवां नासिकया
विधेयाः सर्वाणि हन्युः शिरसो
विकारान् ॥ ७८ ॥ च्युतांश्च केशांश्च-
लितांश्च दन्तान्निर्वन्धमूलान्सुदृढी-
करोति । सुपर्णदृष्टिप्रतिमं च चक्षु-
र्वाहोर्बलश्चाप्यधिकं करोति ॥ ७९ ॥

अण्डकी जड़, तगर, शतावर, जीवन्ती, रास्ना,
भैधानमक, भोंगरा, वायविडंग मुलैठी और सोंठ
इनके कल्कके साथ काले तिलोंके तेलको बकरीके दूध
और भोंगरके चौगुने रसमें पकावे । इसको षट्बिन्दु
तैल कहते हैं । इस तेलकी नासिकाके द्वारा नस्य
देनेसे सर्व प्रकारके शिरोरोग दूर होते हैं । यह तेल-
गिरते हुए बालोंके, हिलते हुए दाँतों और जिनकी
जड़ उखड़ गई है ऐसे दाँतोंको दृढ़ करता है । तथा
दृष्टिको गरुडके समान तीक्ष्ण करता है । एव नेत्र
और बाहुओंके बलकी अत्यन्त वृद्धि करता है ॥ ७७ ॥
॥ ७८ ॥ ७९ ॥

शताह्वतैल ।

शताह्वैरण्डमूलोग्राचक्रव्याघ्रीफलैः
शृतम् । तैलं नस्यान्मरुच्छ्रेष्मतिमि-
रोर्ध्वगदापहम् ॥ ८० ॥

शतावर, अण्डकी जड़, वच, पमाड और बडी
कटेरीके फल इनके कल्कके द्वारा तेलको पकावे ।
इस तेलकी नस्य देनेसे वात, कफ, तिमिर और
ऊर्ध्वगतारोग दूर होते हैं ॥ ८० ॥

जीवकायतैल ।

जीवकर्षभकौ द्राक्षा सिंतायष्टीव-
लोत्पलैः । तैलं नस्यं पयः पक्वं वा-
तपित्तशिरोगदे ॥ ८१ ॥

जीवक, ऋषभक, दाख, मिश्री, मुलैठी, खिरँटी
और कमल इनके कल्कके द्वारा दूधमें तेलको पकावे ।
इस तेलकी वातपित्तजन्य शिरोरोगमें नस्य देनेसे
लाभ होता है ॥ ८१ ॥

बलाद्यतैल ।

बलाजीवन्तिनिर्यासैः पयोभिर्यमकं
पचेत् । जीवनीयैश्च नस्यैश्च सर्वजत्रू-
र्ध्वरोगजित् ॥ ८२ ॥

खिरँटी और जीवन्तीके रस, दूध और जीवनीय
गणकी औषधियोंके कल्कके साथ तेलको पकावे ।
इस तेलकी नस्य देनेसे सर्वप्रकारके ऊर्ध्वजत्रुरोग दूर
होते हैं ॥ ८२ ॥

क्षयशिरोरोगकी चिकित्सा ।

क्षयजे क्षयनाशाय कर्तव्यो वृंहणो
विधिः । पामे नस्ये च सर्पिः स्या-
द्वातघ्नैर्मधुरैः शृतम् ॥ क्षयकासाप-
हं चात्र सर्पिः पथ्यतमं सदा ॥ ८३ ॥

क्षयजशिरोरोगमें क्षयको नष्ट करनेके लिये वृंहण
विधि करनी चाहिये । पान और नस्यमें वातनाशक
तथा मधुर औषधियोंके द्वारा घृतको पकाकर सेवन
करे । एवं कहा हुआ घृत भी यहाँ अत्यन्त उपयोगी
है ॥ ८३ ॥

कृमिजे व्योषनक्ताह्वशिशुबीजैश्च
नावनम् । अजामूत्रयुतं नस्यं कर्तव्यं
कृमिजित्परम् ॥ ८४ ॥

कृमिजन्यशिरोरोगमें त्रिकुटा, करंजके बीज और
साहिजनेके बीज इनको एकत्र बकरीके मूत्रमें पीसकर
नस्य देनेसे कृमिज शिरोरोग दूर होता है ॥ ८४ ॥

शोणितं नस्यतो दद्यात्तेन नूर्च्छन्ति
जन्तवः । मत्ताः शोणितगन्धेन स-
मायान्ति यतस्ततः ॥ ८५ ॥

कृमिजन्यशिरोरोगमें रुधिरकी नस्य देव, रुधिरकी
गंधसे शिरके कृमि नष्ट होते हैं । इस कारण रुधिरके
नस्यसे कृमिजशिरोरोग दूर होता है ॥ ८५ ॥

सुतीक्ष्णधूमनस्याभ्यां कुर्यान्निर्हर-
णं भृशम् । प्रतिमांसकृतान्धूमान्कृ-
मिघ्नांश्च प्रयोजयेत् ॥ भोजनानि
कृमिघ्नानि पानानि विविधानि च ८६ ॥

तीक्ष्ण धूम्र और नस्यके द्वारा कृमियोको दूर कर और दुर्गन्धित मांसकी धूनी देवे । तथा अनेक प्रकारके कृमिनाशक भोजन और पान प्रयोग करे ॥८६॥

**द्वस्वशिशुकबीजैर्वा कांस्यनीलीस-
मायुतैः । कृमिघ्नैरवपीडैश्च मूत्रपिष्टैः
समाचरेत् ॥ ८७ ॥**

छोटे सहजनेके बीज और नीलाथोथा,—इनको एकत्र गोमूत्रमें पीसकर कृमिनाशक अवपीडन देवे ८७

विडंगतैल ।

**विडङ्गस्वर्जिकादन्तीहिङ्गुगोमूत्रसंयु-
तम् । विपक्वं सार्षपं तैलं कृमिघ्नं
नस्यमुत्तमम् ॥ ८८ ॥**

वायविडंग, सजी, दन्ती और हींग इनका कल्क बनाकर उसके साथ गोमूत्रमें सरसोके तेलको पकावे यह तेल कृमिनाशक है, इसीलिये इसकी कृमिजन्य शिरोरोगमें नस्य देना उत्तम है ॥ ८८ ॥

अपामार्गके तैल ।

**अपामार्गफलं व्योषं निशाक्षारकरा-
मठैः । सविडङ्गं शृतं मूत्रे तैलं नस्यं
कृमिं जयेत् ॥ ८९ ॥**

चिरचिटेके फल, त्रिकुटा, हलदी, जवाखार, हींग और वायविडंग इनके कल्कके द्वारा गोमूत्रमें तेलको पकावे । इस तेलकी नस्य देनेसे कृमिजन्य शिरोरोग दूर होता है ॥ ८९ ॥

सूर्यावर्तरोगकी चिकित्सा ।

**सूर्यावर्ते विधातव्यं नस्यकर्मादिभे-
षजम् । पाययेत्सगुडं सर्पिर्वृतपूरांश्च
भक्षयेत् ॥ ९० ॥**

सूर्यावर्तरोगमें नस्यकर्मादिक औषधिका प्रयोग करे तथा गुड और घी इनको एकत्र मिलाकर पान करावे अथवा घृतपूर (घेवर) भक्षण करावे ॥९०॥

**सूर्यावर्ते शिरावेधो नावनं क्षीरस-
र्पिषा । हितः क्षीरघृताभ्यासस्ता-
भ्याञ्चैव विरेचनम् ॥ ९१ ॥**

सूर्यावर्तरोगमें शिरावेध करके दूध और घृत मिलाकर नस्य देवे तथा दूध और घीको मिलाकर पान करावे और इनहींके द्वारा विरेचन देवे ॥९१॥

**क्षीरपिष्टैस्तैलैः स्वेदो जीवनीयैश्च
शस्यते ॥ ९२ ॥**

तिलोको दूधमें पीसकर स्वेद देनेसे अथवा जीवनी-यगणकी औषधियोंको दूधमें पीसकर स्वेद देनेसे सूर्यावर्तरोग दूर होता है ॥ ९२ ॥

**महौषधस्य स्वरसं वचापिप्पलिभि-
र्युतम् । अवपीडं प्रयोक्तव्यं सूर्याव-
र्तविभेदनम् ॥ ९३ ॥**

अदरखका स्वरस, वचा और पीपल इनके द्वारा अवपीडन करनेसे सूर्यावर्तरोग दूर होता है ॥ ९३ ॥

**भृङ्गराजरसश्छागक्षीरतुल्योऽर्कता-
पितः । सूर्यावर्तं निहन्त्याशु नस्ये-
नैव प्रयोजितः ॥ ९४ ॥**

भाँगरेका स्वरस और वकरीका दूध इन दोनोंको समान भाग लेकर धूपमें गरम करके नस्य देनेसे सूर्यावर्तरोग शीघ्र नष्ट होता है ॥ ९४ ॥

**जाङ्गलानि च मांसानि कारयेदुप-
नाहनम् । तेनास्य शाम्यते व्याधिः
सूर्यावर्तः सुदारुणः ॥ ९५ ॥**

जांगलप्रदेशके जीवोके मांसके द्वारा उपनाहन-कर्म करावे इससे दारुण सूर्यावर्तरोग नष्ट होता है ॥ ९५ ॥

**मयूरान्कुक्कुटाञ्छागीक्षीरेणैव वि-
पाचयेत् । तत्क्षीरात्तु समुद्भूतं नवनी-
तमथोद्धरेत् ॥ ९६ ॥ तत्क्षीरे षड्-
गुणे साध्यं जीवनीयोषधैः सह । त-
स्य नस्यं प्रदातव्यं सूर्यावर्तविना-
शनम् ॥ ९७ ॥**

मोर और मुरगेको वकरीके दूधमें पकावे । फिर उस दूधका दही जमाकर उसको मथकर नवनीत निकाल लेवे फिर उसको छःगुने दूधमें जीवनीयग-

णकी औषधियोंके कल्कके साथ सिद्ध करे। उस घृतकी नस्य देनेसे सूर्यावर्त्तरोग दूर होता है १६॥९७

**कृतमालपल्लवरसैः खरिमञ्जरीमूल-
कल्कनवनीतम् । नस्थेन जयति नि-
यतं सूर्यावर्त्त सुदारुणं पुंसाम् ॥९८॥**

अमलतासके पत्तोका रस, चिरचिट्टेकी जड़का कल्क और नैनीची इनको एकत्र मिलाकर नस्य देनेसे मनुष्योंका दारुण सूर्यावर्त्तरोग दूर होता है ॥९८॥

**अर्धावभेदके पूर्व स्नेहस्वेदौ हि यो-
जयेत् । विरेकः कायशुद्धिश्च धूमः
स्निग्धोष्णभोजनम् ॥ ९९ ॥**

अर्धावभेदकरोगभे प्रथम स्नेह और स्वेद प्रयोग करे, फिर विरेचन, शरीरशुद्धि, धूम्रपान, स्निग्ध और उष्ण भोजन देवे ॥ ९९ ॥

**तिलकल्करसं तैलं सक्षौद्रलवणा-
न्वितम् । तैलस्य लेपनं शीर्षमर्द्धभे-
दं व्यपोहति ॥ १०० ॥**

तिलोके कल्कका रस, तैल, गृहद और सैधान-
मक इन सबको एकत्र मिलाकर इस तैलका लेप कर-
नेसे अर्द्धावभेदक शिरोरोग दूर होता है ॥ १०० ॥

**विडङ्गानि तिलान्कृष्णान्समं कृत्वा
तु पेषयेत् । नस्यकर्मणि दातव्यम-
र्द्धभेदं व्यपोहति ॥ १०१ ॥**

वायविडग और काले तिल इन दोनोंको समान
भाग लेकर एकत्र पीसकर नस्य देनेसे अर्द्धावभेदक
शिरोरोग दूर होता है ॥ १०१ ॥

**शालिपर्ण्यम्भसा पिष्ट्वा नस्यमर्द्ध-
विभेदजित् । चक्रमर्दकबीजैर्वा लेपः
काञ्जिकपेषितः ॥ १०२ ॥**

शालिपर्णीके पत्तोको जलमे पीसकर नस्य देनेसे
अथवा चक्रवडके बीजोको फॉर्जिस पीसकर प्रलेप
करनेसे अर्द्धावभेदक शिरोरोग दूर होता है ॥१०२॥

**यद्यस्ति ते शिरसि शूलमतीव गाढं
सूर्यादये समसितश्च पयः पिब त्वम् ।**

**नासापुटेन परमार्थमचिन्त्यशक्तिं दृ-
ष्ट्वाऽऽमये तदनुभूतफलं सदैव ॥१०३॥**

जो शिरमें अत्यन्त घोर शूल हो तो सूर्योदयके
समय नासिकाके द्वारा बराबरकी खाँड मिलाकर दूध
पान करे। इससे अचिन्त्यशक्ति उत्पन्न होती है और
सम्पूर्ण शिरसम्बन्धी पीडा दूर होती है। मैंने सदा यह
अनुभूत फल देखा है ॥ १०३ ॥

**शारिवोत्पलयष्ट्याह्नुष्टैलेपोऽम्बुसं-
युतैः । घृतपूराश्च सेव्या वा सू-
र्यावर्त्तार्द्धभेदयोः ॥ १०४ ॥**

सूर्यावर्त्त और अर्द्धावभेद शिरोरोगमें शारिवा,
कमल, मुलैठी और कूठ इनको एकत्र जलमें पीसकर
लेप करना अथवा घृतपूर (वेवर) को सेवन करना
चाहिए। इससे शीघ्र लाभ होता है ॥ १०४ ॥

**दशमूलीकषायन्तु सर्पिसैन्धवसं-
युतम् । नस्यमर्द्धावभेदघ्नं सूर्याव-
र्त्तशिरोत्तिनुत् ॥ १०५ ॥**

दशमूलका काथ, घी और सैधानमक इनको एकत्र
मिलाकर नस्य देनेसे अर्द्धावभेदक और सूर्यावर्त्त
शिरकी पीडा दूर होती है ॥ १०५ ॥

**भृष्टान्ये कुंकुमं किञ्चित्पिहितं सित-
या समम् । पिष्टं छगल्याः क्षीरेण
भुक्तं पित्तविनाशकम् ॥ एतद्वर्द्धाव-
भेदघ्नं सूर्यावर्त्तशिरोत्तिनुत् ॥१०६॥**

केशरको किञ्चित् घीमे भूतकर उसमे बराबरकी
मिश्री मिलावे। फिर बकरीके दूधमे पीसकर पान
करे तो पित्तजन्यरोग, अर्द्धावभेदक और सूर्यावर्त्त
नामक शिरकी पीडा शांत होती है ॥ १०६ ॥

**अपामार्गस्य बीजानि विश्वं सक्षौ-
द्रशर्करम् । नस्यं प्रयोजयेन्नित्यं सू-
र्यावर्त्ताऽर्द्धभेदयोः ॥ १०७ ॥**

चिरचिट्टेके बीज, सोंठ, मिश्री और गृहद इन सब-
को एकत्र मिलाकर निरन्तर नस्य देनेसे सूर्यावर्त्त
और अर्द्धावभेदकरोग दूर होता है ॥ १०७ ॥

एष एव प्रयोक्तव्यः शिरोरोगे कफा-
त्मके ॥ १०८ ॥

यही सम्पूर्ण विधि कफजन्यशिरोरोगमे करनी
चाहिये ॥ १०८ ॥

अनन्तवाते कर्तव्यः सूर्यावर्तरितो
विधिः । शिराव्यधश्च कर्तव्योऽन-
न्तवातप्रशान्तये ॥ १०९ ॥

अनन्तवातरोगमे सूर्यावर्त्तोक्त विधि करनी चा-
हियोतथा अनन्तवातको शांत करनेके लिये शिरावेध
भी करना चाहिये ॥ १०९ ॥

आहारश्च विधातव्यो वातपित्तवि-
नाशनः । मधुमिश्रकसंयावघृतपूरै-
श्च भोजनैः ॥ ११० ॥

इसमें वातपित्तनाशक आहार देना चाहिये । एवं
मधुमिश्रित संयाव (हलुआ) और घृतपूर (घेवर)
आदिका भोजन करना चाहिये ॥ ११० ॥

शर्करं कुंकुममाज्यभृष्टं नस्यं वि-
धेयं पवनासृगुत्थे ॥ भ्रूशङ्खकर्णाक्षि-
शिरोर्द्धशूले सूर्योदये शङ्खकसार्ध-
भेदे ॥ १११ ॥

वातजन्य शिरकी पीडाभे अथवा भौ, कनपटी,
कर्ण, नेत्र और शिर इनके शूल, अर्द्धशूल, शंखक
और अर्द्धावभेदक शिरोरोगमें केशर घीमे भूनकर
मिश्री मिलाकर सूर्योदयके समय नस्य देवे तो सब
प्रकारका शिरोरोग दूर होता है ॥ १११ ॥

शिरीषमूलकफलैरवपीडश्च योजये-
त् । अवपीडो हितो वा स्याद्वचा-
पिप्पलिभिः कृतः ॥ ११२ ॥

शिरसकी जड और फल अथवा शिरसकी छाल
और मूलीके बीज इनके द्वारा अवपीडन देनेसे अथवा
वच और पीपल इनसे अवपीडन करनेसे सूर्यावर्त्त
और अर्धावभेदक रोग दूर होता है ॥ ११२ ॥

पित्वा शशमुण्डरसं मरिचैरवचूर्णि-
तं समभ्यस्तम् । सप्ताहं भक्तादौ सू-
र्यावर्त्तार्द्धभेदकौ हन्यात् ॥ ११३ ॥

खरगोशके शिरके रसमे कालीमिरचोंके चूर्णको
डालकर भोजनके पहले सात दिनतक सेवन करे तो
सूर्यावर्त्त और अर्धावभेदरोग दूर होता है ॥ ११३ ॥

धात्र्यक्षपथ्यासनिशागुडूचीभूनिम्ब-
निम्बैः कथितः षडङ्गः । भ्रूशङ्खक-
र्णाक्षिशिरोर्द्धशूले सूर्योदये शङ्खक-
मर्द्धभेदे ॥ ११४ ॥ नक्तान्ध्यकाचे पट-
लेऽसशुक्रे पाकेऽश्रुपाते तिमिरेऽक्षि-
रोगे । पक्ष्मप्रकोपे विनिहन्ति चैष
सद्यो गदं वायुरिवाभ्रवृन्दम् ॥ ११५ ॥

आमले, वहेडा, हरड, हलदी, गिलोय, चिरायता
और नीम इनका काथ बनाकर सूर्योदयके समय
पान करनेसे भ्रू, शंख, कर्ण, नेत्र और शिरका शूल,
ऊर्ध्वशूल, शंखक और अर्धावभेदक ये सब रोग दूर
होते हैं । तथा रात्र्यंध, काच, पटल, शुक्रे, पाक,
अश्रुपात, तिमिर, अक्षिरोग और पक्ष्मप्रकोप इत्यादि
समस्त नेत्ररोग इसप्रकार दूर होते हैं, जिस प्रकार
वायुके द्वारा मेघोंका समूह दूर होजाता है ॥ ११४ ॥
॥ ११५ ॥

शर्करा कुंकुमं द्राक्षा चतुर्थांशेन नि-
क्षिपेत् । नवनीते ततस्तेन कृत्वैक्यं
नस्यमाचरेत् ॥ ११६ ॥ नस्यमेतत्प्र-
शंसन्ति सूर्यावर्त्तार्द्धभेदके । शि-
रोरोगे परं वापि वातपित्तसमुद्भ-
वे ॥ ११७ ॥

मिश्री, केशर आरू, दाख ये सब समान भाग
और चौथाई भाग नवनीत लव । इन सबको एकत्र
मिलाकर नस्य देनेसे सूर्यावर्त्त और अर्धावभेदक
शिरोरोग दूर होता है । यह नस्य वातपित्तजन्यशिरो-
रोगमे भी हितकारी है ॥ ११६ ॥ ११७ ॥

सूर्यावर्त्तहरः कृत्स्नो विधिरप्यत्र
शस्यते ॥ ११८ ॥

इस अर्धावभेदक रोगमें सूर्यावर्त्तनाशक सम्पूर्ण
विधि भी प्रयोग करनी चाहिये ॥ ११८ ॥

जीवकाद्यतैल ।

जीवकर्षभकौ द्राक्षा मधूकं मधुकं
बला । नीलोत्पलं चन्दनश्च विदारी

शर्करा तथा ॥ ११९ ॥ तैलप्रस्थं
पचेदेभिः शनैः पयसि षड्गुणे । जांग-
लस्य तु मांसस्य तुलार्द्धस्य रसेन तु
॥ १२० ॥ सिद्धमेतद्भवेन्नस्यं तैलम-
र्द्धावभेदकम् । वाधिर्यं कर्णशूलञ्च
तिमिरं गलशुण्डिकाम् ॥ १२१ ॥
वातिकं पैतिकञ्चैव शीर्षरोगं निय-
च्छति । दन्तचालं शिरश्चालमर्दि-
तश्चापकर्षति ॥ १२२ ॥

जीवक, ऋपभक, दाख, मुलैठी, महुवा,
खिरैदी, नलोटपल (अभावमे नीलोफर), चन्दन,
विदारिकंद और शर्करा (मिश्री) इनके कल्कके
द्वारा एक प्रस्थ तैलको छ गुने दूधमे और जागल-
प्रदेशके जीवोंके आधा तुला परिमाण मांसरसके
साथ यथाविधि तैलको पकावे । इस तैलकी नस्य
देनेसे अर्धावभेदक शिरोरोग, वधिरता, कर्णशूल,
तिमिर, गलशुण्डी, वात और पित्तजन्य शिरोरोग,
दंतचलन, शिरका हिलना और अर्दित ये सब रोग
नष्ट होते हैं ॥ ११९ ॥ १२० ॥ १२१ ॥ १२२ ॥

सूर्यावर्ते हितं यत्तच्छंखके स्वेद-
वार्जितम् । क्षीरसर्पिः प्रशंसन्ति
नस्ये पाने च शंखके ॥ १२३ ॥

सूर्यावर्तरोगमे स्वेदको छोडकर और जो चिकि-
त्सा कही है, वह सब शंखरोगमें भी करनी
चाहिये । दूध और घी मिलाकर शंखरोगमें नस्य
और पानमें प्रयोग करना हितकर है ॥ १२३ ॥

शतावरीं कृष्णतिलान्मधुकं नील-
मुत्पलम् । दूर्वा पुनर्नवां वापिलेपे
साध्ववतारयेत् ॥ १२४ ॥

शतावर, कालेतिल, मुलैठी, नीलकमल, दूव
और पुनर्नवा इनको एकत्र पीसकर भलीभांति
लेप प्रयोग करे ॥ १२४ ॥

भद्रश्रियं पुंडरीकं मधुकं नीलमु-
त्पलम् । पत्रकं वेतसं दूर्वालामज्जक-
मथापि वा ॥ १२५ ॥ दूर्वाहरिद्रा-

मञ्जिष्ठाफेनिलोशरिमेव च । एत-
दालपेनं कुर्याच्छङ्खकस्य प्रशान्त-
ये ॥ १२६ ॥

शंखरोगको शमन करनेके लिये सफेदचन्दन,
पुण्डरीक (पुण्डेरिया), मुलैठी, नीलकमल,
पद्माख, वेत, दूध, लामज्जकतृण, दासुहलदी, हलदी,
मजीठ, रोठा और रूस इन सबको एकत्र मिलाकर
लेप करना चाहिए ॥ १२५ ॥ १२६ ॥

सूर्यावर्त्तापहं चास्मिन्नवपीडं प्रयो-
जयेत् ॥ १२७ ॥

इसमें सूर्यावर्त्तनाशक अवपीडन भी प्रयोग
करे ॥ १२७ ॥

क्रौञ्चकादंबहंसानां शराय्याः कच्छ-
पस्य च । रसैः संबृंहितस्याथ तस्य
शङ्खस्य सन्धिजाः ॥ १२८ ॥

क्रौञ्च (कुर), कादम्ब (कलहंस), हंस,
शरारी (सिन्दुआडी) और कलुआ इनक मांस-
रसके द्वारा छष्ट पुष्ट शरीरवाले मनुष्यके शंखकी,
सन्धियोंकी शिराओको वेधे ॥ १२८ ॥

शङ्खकस्य शिरां प्राज्ञो विध्येदेव न
ताडयेत् । सर्पिषा क्षीरपानन्तु नस्ये-
नापि सुखेन वा ॥ १२९ ॥

बुद्धिमान वैद्य शंखककी शिराको वेधकर ताडन
नहीं करे । और घृतेके साथ दूधको पान करे और
सुखपूर्वक नस्य देवे ॥ १२९ ॥

एष एव विधिः श्रेष्ठः शंखके शर्करा-
न्वितः । शर्कराक्षीरसलिलैः शिरश्च
परिषेचयेत् ॥ १३० ॥

शंखरोगमे शर्करासहित यह विधि करना
अत्यन्त श्रेष्ठ है । मिश्री, दूध और जल इनको एकत्र
मिलाकर इनसे शिरपर सेवन करे ॥ १३० ॥

वातो रूक्षादिभिः कृद्धः शिरःकम्प-
मुदीरयेत् ॥ १३१ ॥ तत्रामृताबलारा-
स्त्रामहास्त्रेहातिगन्धकैः । स्नेहस्वेदा-

ऽतिवातघ्नं शस्तं नस्यश्च तर्पणम् १३२
रूक्ष आदि प्रयोगोंको सेवन करनेसे वायु कुपित
होकर शिरकम्पको उत्पन्न करता है उसमें गिलोच,

खिरैटी, रायसन तथा अन्यान्यवातनाशक द्रव्य तैल, घृतादि और सुगन्धितपदार्थोंके द्वारा स्नेह और स्वेद देवे तथा नस्य और तर्पण देवे यह प्रयोग अत्यन्त वातनाशक है ॥ १३१ ॥ १३२ ॥

दग्धमत्स्यं विनिष्पीडय निर्द्रवीकृत्य यत्नतः । कण्डूरामूलनिय्यासो माषयूषावलौडितम् ॥ १३३ ॥ भक्षितं शमयेच्चूर्णं शिरःकम्पमसंशयम् ॥ १३४ ॥

मछलीको पुटपाककी विधिसे पकाकर उसका रस निकालकर धूपमे सुखा लेवे । फिर उसको कौँछकी जडके रसेम और उडदोकी जडके यूपमें आलोडन करके भक्षण करे । इस चूर्णके सेवनसे शिरःकम्प अवश्य नष्ट होता है ॥ १३३ ॥ १३४ ॥

नस्यकर्म च कुर्वीत शिरोरोगेषु शास्त्रवित् । कम्पदाहादिते कुर्याद्वातव्याधिक्रियाविधिः ॥ १३५ ॥

शास्त्रको जाननेवाला वैद्य शिरोरोगमें विधिपूर्वक नस्य कर्म करे । कम्प और दाहकी पीडामे वातव्याधिकी चिकित्साके समान चिकित्सा करे ॥ १३५ ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां शिरोरोगनिदान चिकित्साधिकार समाप्त ॥ ६८ ॥

अथ स्त्रीरोगाधिकार ।

अब सबसे पहले नष्टआर्त्तवकी चिकित्सा कहते हैं:-

गृहचिरस्थितमङ्गलचूतदलैः संस्कृतं जलं पेयम् । मरिचासजाग्रमदिरापानस्तारसालिलस्य ॥ १ ॥

घरमे बहुत दिनोंसे बँधीहुई आमके पत्तोंकी वन्दनवारके द्वारा जलको संस्कार करके पान करनेसे अथवा काली मिर्च, विजयसार और मद्यका फूल इनको एकत्र मिलाकर पान करनेसे स्त्रियोंके नष्टहुआ रजोधर्म फिरसे होने लगता है ॥ १ ॥

इक्ष्वाकुबीजदन्तीचपलागुडमदनकिण्वयावशुकैः । सस्तुकृक्षीरैर्वर्त्तियोन्निगता कुसुमसजननी ॥ २ ॥

कडवी तोम्बुके बीज, दन्ती (अभावमें जमालगोटा), पीपल, गुड, मैनफल, सुराबीज और जवाखार इन सबको एकत्र थूहरके दूधमे पीसकरके बत्ती बनाकर योनिमें रखनेसे स्त्रीके रजोदर्श होता है ॥ २ ॥

सलिलनिपीतं कुसुमं रक्तजपाया गृहांडुसंपीतम् । जनयति कुसुमं नार्या भृष्टं ज्योतिष्मतीपत्रम् ॥ ३ ॥

लालगुडहलके फूलको कौँजीमे पीसकर पान करनेसे अथवा सालकांगुनीके पत्तोंको भूनकर कौँजीके साथ पीसकर पान करनेसे स्त्रियोंके रजोदर्श उत्पन्न होता है ॥ ३ ॥

पंकेरुहाणां मूलं पिष्टकमशितं तथा सुराबीजम् । हिमसलिलेन निपीतं भवतीह कुसुमाय नारीणाम् ॥ ४ ॥

कमलकी जडको पीसकर भक्षण करनेसे अथवा सुराके बीजको शीतल जलके साथ पीसकर पान करनेसे स्त्रियोंके आर्त्तव उत्पन्न होता है ॥ ४ ॥

अथ प्रदररोगका निदान ।

विरुद्धमद्याध्यशनादजीर्णाद्गर्भप्रपातादतिमैथुनाच्च । यानाध्वशोकादतिकर्षणाच्च भाराभिघाताच्छयनाद्विवा च ॥ ५ ॥

संयोग विरुद्ध भोजन करनेसे, मदिराको पीनेसे, भोजनपर भोजन करनेसे, अजीर्णसे, गर्भके पतित होनेसे, अत्यन्त मैथुन करनेसे, हाथी, घोड़े आदिपर चढकर उसको दौडानेसे, अधिक मार्गके चलनेसे, अत्यन्त शोक करनेसे, अत्यन्त कर्पण करनेसे (उपवासादि करनेसे), बहुत वोझको उठानेसे, अभिघातसे और दिनेमे अधिक सोनेसे स्त्रियोंके अनेकप्रकारके प्रदर रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ५ ॥

प्रदरके समान्य लक्षण ।

असृग्दरं भवेत्सर्वं साङ्गमर्दं संवेदन-
म् ॥ ६ ॥

सर्वप्रकारके प्रदररोगमें दुग्धरजका अत्यन्त नाव
होता है, अंग टूटते हैं और पीडा होती है ॥ ६ ॥

अत्यन्त रुधिर वहनेके उपद्रव ।
तस्यातिवृद्धां दौर्बल्यं भ्रमो मूर्च्छा
मदस्तृषा । दाहः प्रलापः पांडुत्वं
तन्द्रा रोगाश्च वातजाः ॥ ७ ॥

प्रदरके अधिक बढजानेसे दुर्बलता, भ्रम, मूर्च्छा-
का आना, मद (नसाम्ना) होना, पियासका अधिक
लगना, दाहका होना, वृथा बरुवाद, शरीरका रग,
सफेदी युक्त पीला पडजाना, नेत्रोंमें तन्द्रा और वात-
जनित आक्षेपकादिरोग होते हैं ॥ ७ ॥

तं श्लेष्मपित्तानिलसन्निपातैश्चतुःप्र-
कारं प्रदरं वदन्ति ।

यह प्रदररोग कफ, पित्त, वात और सन्निपात इन
भेदोंसे चार प्रकारका होता है ।

कफजप्रदरके लक्षण ।

आमं सपिच्छाप्रतिमं सपाण्डुपुलाक-
तोयप्रतिमं कफान्तु ॥ ८ ॥

कफके प्रदरमें आम अर्थात् कचे रसवाला, सेमल
आदिके गोंदके समान चिकना, कुछएक पीलापन
लिये हुए सफेद और तुच्छ चावलोंके धोवनके समान
सफेद स्राव होता है ॥ ८ ॥

पित्तजनितप्रदरके लक्षण ।

सपीतनीलासितरक्तमुष्णं पित्ता-
र्त्तियुक्तं भृशवेगि पित्तात् ।

पित्तजन्य प्रदरमें पीला, नीला, काला, लाल और
गरम, ऐसा पित्तकी दाह और पीडा सहित बारम्बार
स्राव होता है ।

वातजन्यप्रदरके लक्षण ।

रूक्षारुणं फेनिलमल्पमल्पं वातार्त्ति-
वातात्पिशितोदकाभम् ॥ ९ ॥

वातके प्रदरमें रूखा, लाल, झागोंसहित और
वायुकी पीडा सहित मासके धोवनके समान थोडा
थोडा स्राव होता है । ॥ ९ ॥

त्रिदोषजप्रदरके लक्षण ।

सक्षौद्रसर्पिर्हरितालवर्णं मज्जाप्र-
काशं कुणपं त्रिदोषम् । तं चाप्य-
साध्यं प्रवदन्ति तज्ज्ञा न तत्र कुर्वी-
त भिषक् चिकित्साम् ॥ १० ॥

त्रिदोषजनित प्रदररोगमें गहद, घों और इरताल-
के समान रंगवाला, मज्जाके समान और शंखके
अभ्यन्तर जीवके समान गंधवाला रुधिर वहता है ।
विद्वान् वैद्य इस प्रदरको असाध्य कहते हैं । इस
कारण वैद्य इसकी चिकित्सा नहीं करे ॥ १० ॥

**असाध्यप्रदररोगवाली स्त्रीकी
त्याज्य चिकित्सा ।**

शश्वत् स्रवन्तीमास्त्रावं तृष्णादाह-
ज्वरान्विताम् । क्षीणरक्तां दुर्बलाश्च
तामसाध्यां विनिर्दिशेत् ॥ ११ ॥

जिस स्त्रीके निरन्तर रुधिरका स्राव हो, तृषा,
दाह, तथा ज्वरसे युक्त हो, बहुत दुर्बल और जिसका
रुधिर क्षीण होगया हो ऐसी प्रदररोगवाली स्त्रीकी
चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ॥ ११ ॥

**चिकित्सानिवृत्तिके पश्चात् शुद्धा-
र्त्तवके लक्षण ।**

मासान्निष्पिच्छदाहार्त्तिं पञ्चरात्रा-
नुबन्धि च । नैवातिबहुलात्यल्पमा-
र्त्तवं शुद्धमादिशेत् ॥ १२ ॥ शशा-
सृक्प्रतिमं यच्च यद्वा लाक्षारसोपम-
म् । तदार्त्तवं प्रशंसन्ति यद्वासो न
विरज्येत ॥ १३ ॥

जो आर्त्तव महीनेके महीने निकले, जिसमें चिक-
नापन, दाह और शूल न हो तथा पाच दिनतक नि-
कलता रहे और जो न बहुत निकले और न थोडा
निकले, वह आर्त्तव शुद्ध होता है । जो आर्त्तव
खरगोशके रुधिरके समान लाल हो अथवा लाखके
रसके समान हो और जिसके सने हुए बरुको जलमें
धोनेसे उसका रंग छूटजाय उसको शुद्ध आर्त्तव कहते
हैं ॥ १२ ॥ १३ ॥

अथ स्त्रीरोगकी चिकित्सा ।

असृग्दरः प्राणहरः स्त्रीणां सर्वत्र
कीर्तितः । तस्मान्तस्य प्रशमने परं
यत्नं समाचारेत् ॥ १४ ॥

स्त्रियोका प्रदररोग सर्वत्र प्राणनाशक कहा है,
इस कारण उसको शमन करनेके लिये विशेष यत्न
करना चाहिये ॥ १४ ॥

नारीणां प्रदरार्तानां योगान्वक्ष्याम्य-
तःपरम् । योनिशूलापहान्सिद्धान्त-
र्भसंस्थापनान्परान् ॥ १५ ॥ सर्वेषु
पूर्वं वमनं प्रशरतं रसेक्षुद्राक्षोदकत-
र्पणैश्च । सपिप्पलीभिर्मधुमण्डकलकै-
र्मुस्तायवानाश्च गुडाम्बुमिश्रैः ॥ १६ ॥

अब प्रदररोगसे पीडित स्त्रियोके लिये प्रदररोगको
हरनेवाले प्रयोगोंको तथा योनिशूलनाशक और गर्भ-
जनक सिद्ध प्रयोगोंको कहता हूँ । सर्व प्रकारके
प्रदरोमें प्रथम वमन करानी चाहिये और इसके रस
तथा दाखका जल इनके द्वारा तर्पण कराना चाहिये
एव पीपल, शहद, माँड, नागरमोथेका कल्क और जौ
इन्का गुडके शर्वतके साथ प्रयोग करे ॥ १५ ॥
॥ १६ ॥

पद्मकोत्पलबीजानि त्रापुसानि श-
तावरी । विदारी चक्षुमूलश्च पिप्पा
धौतघृतायुतम् ॥ योन्यां शिरसि
गात्रे च प्रदेहोऽसृग्दरापहः ॥ १७ ॥

पद्माख, कमलके बीज, खीरेके बीज, शतावर,
विदारीकन्द और ईखकी जड इन सबको एकत्र
पीसकर धुले हुए घीमें मिलाकर योनि और शिर तथा
शरीरपर भ्रूनेसे प्रदररोग दूर होता है ॥ १७ ॥

मुद्गपर्णीविपक्वेन तैलेन पिचुधारणम् ।
कर्त्तव्यं रक्तनाशाय मार्दवाय सु-
खाय च ॥ १८ ॥

मुद्गपर्णी द्वारा तेलको पकाकर उसमें रुई अथवा
कपडेको भिजोकर फाया रखनेसे रुधिरका गिरना
दूर होता है । एवं मृदुता और सुख उत्पन्न होता
है ॥ १८ ॥

दध्रा सौवर्चलाजाजीमधुकं नीलमु-
त्पलम् । पिवेत्क्षौद्रयुतं नारी वाता-
सृग्दरपीडिता ॥ १९ ॥

कालानमक, जोगा, मुलंठी, नीलकमल और शहद
इन सबको एकत्र दहीमें मिलाकर सेवन करनेसे स्त्रि-
योका वातजन्य प्रदररोग दूर होता है ॥ १९ ॥

तिलचूर्णं दधि घृतं फाणितं शौकरीं
वसाम् । क्षौद्रेण संयुतं पेयं वातासृ-
ग्दरनाशनम् ॥ २० ॥

तिलोंका चूर्ण, दही, घी, राव और मृअरकी चर्वा
इन सबको एकत्र शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे
वातजनित प्रदररोग दूर होता है ॥ २० ॥

वाराहस्य रसो मेध्यः सकौलित्यो
निशाधिकः । वातासृग्दरशान्त्यर्थं
पिवेद्दध्रा वराङ्गना ॥ २१ ॥

मृअरका मांसरस, वकरेका मांसरस और कुलथी-
का रस इनको दही और अधिकतर हल्दीके साथ
वातजनित प्रदररोगको शमन करनेके लिए सेवन
करना चाहिए ॥ २१ ॥

पित्तासृग्दरशान्त्यर्थं पिवेदिक्षुरसेन
वा ॥ २२ ॥

अथवा पित्तजप्रदरको दूर करनेके लिये खीरेके
रसको पान करे ॥ २२ ॥

पिवेद्वैण्यकं रक्तं शर्करामधुसंयुतम् ।
वासकस्वरसं पित्ते शुद्ध्या रसमेव
वा ॥ २३ ॥

हिरनके रुधिरको मिश्री और शहद मिलाकर पान
करनेसे अथवा अड्डसेके रसको या गिलोयके रसको
पान करनेसे पित्तजनित प्रदररोगमें लाभ होता
है ॥ २३ ॥

चन्दनोशीरपत्तङ्गमधुकं नीलमुत्प-
लम् । त्रपुसैर्वाहबीजानि धातकीकङ्क-
लीफलम् ॥ २४ ॥ कोललाक्षावटारोहं-
पद्मकं पद्मकेशरम् । एतान्कल्कान्म-
धुयुतान्पाययेत्तंडुलांबुना ॥ २५ ॥

त्र्यहात्प्रशमयेद्वैद्योपितां पैत्तिकं
रजः ॥ २६ ॥

घन्दन, खस, पतंग, मुलैठी, नीलकमल, खीरे और ककडीके बीज, धायके फूल, केलेकी फलो, बेर, लाख, बडके अंकुर, पद्मार और कमलकेशर इनका कल्क बनाकर उसको शहदमें मिलाकर चावलोंके जलके साथ पान करावे इससे खियोंका पित्तजन्य प्रदररोग तीन दिनमें दूर होता है ॥ २४ ॥
॥ २५ ॥ २६ ॥

शर्कराक्षौद्रसंयुक्तं यष्ट्याहं नागरं
दधि । पयस्योत्पलशालूकविसका-
लीयजं रजः ॥ पयसा शर्कराक्षौद्र-
युतेनासृग्दरे पिबेत् ॥ २७ ॥

मिश्री, शहद, मुलैठी, सोंठ और दही इन सबको एकत्र मिलाकर सेवन करे । अथवा काकोली, कमल, कमलकन्द (भसींढा), कमलकी नाल और पीत घन्दनका चूर्ण इनको दूध, मिश्री और शहदमें मिला कर पित्तजनित प्रदररोगमें पान करना चाहिए ॥ २७ ॥

कपित्थवेणुपत्रञ्च सममेकत्र पेषयेत् ।
मधुना सह दातव्यं तीव्रप्रदरनाश-
नम् ॥ २८ ॥

कैथके पत्ते और वांसके पत्ते इन दोनोंको एकत्र पीसकर शहदमें मिलाकर सेवन करानेसे तीव्र रक्तप्रदररोग शांत होता है ॥ २८ ॥

अशोकवल्कलक्वाथं शृतं दुग्धं सुशी-
तलम् । यथाबलं पिबेत्प्रातस्तीव्रा-
सृग्दरनाशनम् ॥ २९ ॥

अशोककी छालका काढा बनाकर उसमें दूधको पकावे जब वह अपने आप गाँतिल होजाय तब बलानुसार प्रातःकाल सेवन करे तो तीव्र रक्तप्रदररोग शांत होता है ॥ २९ ॥

क्षौद्रयुक्तं फलरसं काकोदुम्बरजं
पिबेत् । असृग्दरविनाशाय सशर्क-
रपयोऽन्नभुक् ॥ ३० ॥

प्रदररोगको विनाश करनेके लिए कडूरके फलोंके रसको शहदके साथ मिलाकर सेवन करे और इस पर मिश्री दूध और भातका भोजन करे ॥ ३० ॥

मधुकं त्रिफलालोध्रमुष्टं सौराष्ट्रिकां
मधु । मद्यैर्निम्बगुडूच्यौ तु कफजे-
ऽसृग्दरे पिबेत् ॥ ३१ ॥

मुलैठी, त्रिफला, लोध, ऊँटकटीरा, फिटकरी, शहद, मदिरा, नीम और गिलोय इन सबको एकत्र मिश्रित करके कफजनित प्रदररोगमें पान करे ॥ ३१ ॥

रोहितकान्मूलकल्कं पाण्डुरेऽसृग्दरे
पिबेत् । जलेनामलकीबीजकल्कं वा
ससितं मधु । पिबेद्दिनत्रयेणैव श्वेत-
प्रदरनाशनम् ॥ ३२ ॥

रोहिडेकी जड़का कल्क बनाकर उसको श्वेतप्रदररोगमें पान करे । आमलेके बीजोंका कल्क, मिश्री और गहद इनको जलमें मिलाकर तीन दिन तक पान करनेसे श्वेतप्रदर नष्ट होता है ॥ ३२ ॥

काकजङ्घाकमूलं वा मूलं कार्पासमे-
व वा । पाण्डुप्रदरनाशाय पिबेत्तंडु-
लवारिणा ॥ ३३ ॥

काकजंघाकी जड़ अथवा कपासकी जड़को चावलोंके जलके साथ पीसकर पान करनेसे श्वेतप्रदर नष्ट होता है ॥ ३३ ॥

तक्राशनरता सम्यक्संपिबेन्नागके-
शरम् । त्र्यहं तक्रेण संपीडय श्वेतप्र-
दरशान्तये ॥ ३४ ॥

श्वेत प्रदरको शमन करनेके लिए तक्रमें पीसकर नागकेशरको तीनदिनतक सेवन करे और तक्रमें साथ ही भोजन करे ॥ ३४ ॥

फलत्रिकं दारुवचा सवासा लाजा
सदूर्वाकलशीसमङ्गा । क्षौद्रान्वितं
क्वाथमिदं सुशीतं सर्वात्मके पेयम-
सृग्दरे हि ॥ ३५ ॥

त्रिफला, देवदारु, वच, अडूसा, खीलें, दूब, पृश्निपर्णी और मजीठ इन सबका काथ बनाकर उसको शातल करके गहद मिलाकर त्रिदोषजनित प्रदररोगमें पान करना चाहिए ॥ ३५ ॥

दावीरसाञ्जनवृषाब्दकिरातविल्व-
भल्लातकैरवकृतो मधुना कषायः ।
पीतो जयत्यतिबलं प्रदरं सशूलं पी-
तासितारुणविलोहितनीलशुक्लम् ॥ ३६ ॥

दारुहलदी, रसौत, अड्डसा, नागरमोथा, चिरायता, बेलगिरी, भिलावे इनका काथ बनाकर शहद मिलाकर पान करनेसे अत्यन्त बढा हुआ शूलयुक्त पीला, काला, लाल, लोहित, नीला और सफेद रगका प्रदर नष्ट होता है यह अनुभूत प्रयोग है ॥ ३६ ॥

लिप्ते ललाटपट्टे बलतरखञ्जनेत्रकल्केन । प्रदरः शाम्यति नित्यं विचित्रिता द्रव्यशक्तिरियम् ॥ ३७ ॥

खजपक्षीके नेत्रोंका कल्क बना करके ललाटपर लेप करनेसे प्रदररोग अवश्य नष्ट होजाता है । इस द्रव्यकी विचित्र शक्ति है ॥ ३७ ॥

आखोः पुरीषं पयसा निषेव्यं वह्नेर्बलादेकमहद्वर्चं वा । स्त्रियो महाशोणितवेगनद्याः क्षणेन पारं परमाप्नुवन्ति ॥ ३८ ॥

मूसेकी विष्टाको दूधके साथ अग्निके बलानुसार एक दिनतक अथवा दो दिनतक सेवन करे तो स्त्रियोंका नदीके वेगके समान अत्यन्त बहता हुआ भी रुधिर क्षणभरमे बंद होजाता है ॥ ३८ ॥

मधुना तार्क्ष्यसंयुक्तं मूलं स्यात्तण्डुलीयकम् । तंडुलाम्बुयुतं पानात्सर्वप्रदरनाशनम् ॥ ३९ ॥

रसौत और चौलाईकी जड इन दोनोंको एकत्र पीसकर शहदमे मिलाकर चावलोके जलके साथ पान करनेसे सर्वप्रकारका प्रदररोग नष्ट होता है विशेष करके रक्तप्रदर दूर होता है ॥ ३९ ॥

कुशमूलं समाहृत्य पाययेत्तंडुलांबुना । एतत्पीत्वा त्र्यहं नारी प्रदरात्परिमुच्यते ॥ ४० ॥

कुशाकी जडको लाकर चावलोंके जलके साथ पीसकर पान करावे । इसको तीन दिनतक पीनेसे स्त्री प्रदररोगसे मुक्त होती है ॥ ४० ॥

प्रदरं शाम्यति नार्याः कथितः सलिलेन वा, पयसा । मूलं वास्तुकाञ्जयोः पीतं दिवसत्रयेणैव ॥ ४१ ॥

वधुआ अथवा कमलकी जडको जलमे अथवा दूधमें पकाकर तीन दिनतक पान करनेसे स्त्रियोंका प्रदररोग शमन होता है ॥ ४१ ॥

भूम्यामलकबीजन्तु पीतं तण्डुलवारिणा । दिनद्वयत्रयेणैव स्त्रीरोगं नाशयेद्दुधवम् । मेढूगं रुधिरस्त्रावं रक्तातीसारमुल्बणम् ॥ ४२ ॥

भुई आमलेके बीजोंको चावलोंके जलके साथ पीसकर पान करनेसे दो या तीन दिनमें प्रदररोग अवश्य नष्ट होता है । तथा लिगसे रुधिरका गिरना और उल्बण रक्तातीसार नष्ट होता है ॥ ४२ ॥

असितोत्पलशालूकं निस्तुषा रक्तशालयः । यवानिगैरिकं यासाः समभागेन चूर्णिताः ॥ क्षौद्रेण तांश्च संयोज्य लिह्यात्प्रदरपीडिता ॥ ४३ ॥

प्रदररोगसे पीडित स्त्री नीलकमल, भर्सीड़ा (कमलकन्द), लालशालिधानोंके चावल, अजवायन, गेरू और जवासा इन समस्त औषधियोंको समान भाग लेकर एकत्र वारीक चूर्ण करके शहदमे मिलाकर सेवन करे तो प्रदररोग दूर होता है ॥ ४३ ॥

तण्डुलीयकमूलश्च सक्षौद्रं तण्डुलांबुना । रसाञ्जनश्च लाक्षाश्च छागेन पयसा पिबेत् ॥ ४४ ॥

चौलाईकी जडको पीसकर शहद और चावलोंके जलके साथ पान करे अथवा रसौत और लाखाको बकरीके दूधमें पीसकर रक्तप्रदरसे पीडित स्त्री पान करे ॥ ४४ ॥

प्रदरं हन्ति बलाया मूलं दुग्धेन समधुना पीतम् । कुशवाट्यालकमूलं तण्डुलसलिलेन रक्ताख्यम् ॥ ४५ ॥

खिरैटीकी जडको दूधमें पीसकर शहदमे मिलाकर पान करनेसे प्रदररोग नष्ट होता है । तथा कुशाकी जड और खिरैटीकी जडको चावलोंके जलमें पीसकर पान करनेसे रक्तप्रदर नष्ट होता है ॥ ४५ ॥

दग्ध्वा मूषकविष्टान्तु लोहिते प्रदरे पिबेत् ॥ ४६ ॥

मूसेकी विष्टाको जलाकर दूध या जलके साथ रक्तप्रदरमें पान करे ॥ ४६ ॥

शर्करायाः पलं पिष्ट्वा मधुकस्य चतु-
प्लमम् । तण्डुलोदकसंयुक्तं लोहित-
प्रदरे पिबेत् ॥ ४७ ॥

मिश्री ४ तोले, मुलैठी १६ताले इन दानोको एकत्र
पीसकर चावलोके जलके साथ रक्तप्रदरमें पान
करना चाहिये ॥ ४७ ॥

काश्मर्यवटशुङ्गानि पृथग्दन्त्यास्त-
थैव च । घृतं सिद्धं भवेच्छ्रेष्ठं शोणि-
तप्रदरे पिबेत् ॥ ४८ ॥

कुम्भेर, वडके अंकुर और वृती इन प्रत्येक औप-
धिके कल्कके द्वारा पृथक् पृथक् घृतको पकाव । इन
तीनों घृतोंमेंसे किसी एक घृतको रक्तप्रदररोगमें सेवन
करना उत्तम है ॥ ४८ ॥

तरुण्याऽहितसेविन्यास्तदल्पोऽपद्रवं
भिषक् । रक्तपित्तविधानेन यथावत्स-
मुपाचरेत् ॥ ४९ ॥

युवावस्थावाली अहित पदार्थोंको सेवन करने-
वाली लीके यदि अल्पपद्रव हों तो वैद्य रक्तपित्तके
विधानसे उसकी यथाविधि चिकित्सा करे ॥ ४९ ॥

हितश्चात्र विशेषेण लेहो यः कुट-
जाष्टकः ॥ ५० ॥

विशेष करके इस रक्तप्रदरमें कुटजाष्टकावलेह हित-
कारी है ॥ ५० ॥

पुण्यालुगं चूर्णम् ।

पाठाजंभ्वाम्रयोर्मध्यं शिलाभेदं र-
साञ्जनम् । अम्बष्टको मोचरसः स-
मङ्गा पद्मकेसरम् ॥ ५१ ॥ बाह्लीका-
तित्रिषामुस्तं विल्वं लोभ्रं सगैरिक-
म् । कटफलं नरिचं शुण्ठी मृद्धीका
रक्तचन्दनम् ॥ ५२ ॥ कट्वङ्गवत्सका-
नन्ताधातकीमधुकार्जुनम् । पुप्येणो-
द्धृत्य तुल्यानि श्लक्ष्णचूर्णानि कार-
येत् ॥ ५३ ॥ तानि क्षौद्रेण संयुज्य
पाययेत्तंडुलांबुना । असृग्दरातिसा-
रेषु रक्तं यच्चोपवेश्यते ॥ ५४ ॥ दो-
षाग्न्युक्ता ये च बालानां तांश्च

नाशयेत् । योनिदोषं रजोदोषं श्वे-
तनीलं सपीतकम् ॥ ५५ ॥ स्त्रीणां
श्यावारुणं यश्च तत्प्रसह्य निवर्त्त-
येत् । चूर्णं पुप्यालुगं नाम हितमात्रे-
यपूजितम् ॥ ५६ ॥

पाठ, जामुन और आमकी गुठली, पापाणभेद,
रधांत, मोईया, मोचरस, मजीठ, कमलकेगर, केगर,
अतीस, नागरमोथा, बेलगिरी, लोध, गेरू, काय-
फल, कालीमिरच, सोंठ, दाख, लालचन्दन, ग्योनाक,
कुड़ा, अनन्तमूल, घायके फूल, मुलैठी और अर्जुनकी
छाल इन सबको पुप्यनक्षत्रमें समान भाग लेकर चारी-
क चूर्ण कर लेवे । फिर इस चूर्णको गहदमे मिला-
कर चावलोंके जलके साथ सेवन करावे । यह पुप्या-
नुगचूर्ण—सर्व प्रकारका प्रदर, अतिसार, रक्तातिसार,
तथा बालकोंके आगन्तुकदोष, स्त्रियोंके यानिदोष,
रजोदोष, श्वेतप्रदर, नीलप्रदर, पीतप्रदर, श्यावप्रदर
और लालप्रदर, इन सबको बलात्कारसे दूर करता
है । आत्रेयमुनिके द्वारा यह चूर्ण पूजित किया गया
है । इसको पुप्यानुग चूर्ण कहते हैं ॥ ५१-५६ ॥
अशोकघृत ।

अशोकवल्कलप्रस्थं तोयाठक्काविषा-
चितम् । चतुर्भागावशिष्टेन घृतप्रस्थं
विषाचयेत् ॥ ५७ ॥ तंडुलांबु त्वजा-
क्षीरं घृततुल्यं प्रदापयेत् । जीवकस्य
रसश्चापि केशराजोद्भवस्तथा । जी-
वनीयैः प्रियालैश्च पुरुषैः सरसाञ्जनैः
॥ ५८ ॥ यष्ट्याहशोकमूलश्च मृद्धी-
का च शतावरी । तंडुलीयकमूलश्च
कल्करेभिः पलाङ्गिकैः ॥ ५९ ॥ श-
र्करायाः पलान्यष्टौ गर्भं दत्त्वा सु-
चूर्णितम् । पुप्ययोगेन तत्सर्पिः श-
र्नैर्मृद्धिभिना पचेत् ॥ ६० ॥ पीतमेत-
द्वृतं हन्यात्सर्वदोषसमुद्भम् । श्वे-
तं नीलं तथा कृष्णं प्रदरं हन्ति दु-
स्तरम् ॥ ६१ ॥ कुक्षिशूलं कटीशूलं
योनिशूलश्च सर्वगम् । मन्दाग्निमरु-
चिं पांडुं कृशत्वं श्वासकासकम् ॥ ६२ ॥

आयुःपुष्टिकरं धन्यं बलवर्णप्रसादनम् । देयमेतद्धरं सर्पिर्विष्णुना परिकीर्तितम् ॥ ६३ ॥

अशोककी छालको एक प्रस्थ लेकर एक आढक जलमे पकावे । जब पकते २ चौथाई भाग जल शेष रह जाय तब उतारकर छानलेवे । फिर इस काथम घृत एक प्रस्थ, चावलोका जल १ प्रस्थ, बकरीका दूध १ प्रस्थ, जीवकका रस १ प्रस्थ और कुकुरभागरेका रस १ प्रस्थ, तथा कल्कके लिये जीवनीयगणकी ओपवियों चिरौजी, फालसे, रसौत, मुलैठी, अशोककी छाल, वाख, शतावर और चौलाईकी जड़, इन प्रत्येकका कल्क दो२ तोले, और मिश्रीका चूर्ण ३२ तोले डाल यथाविधिसे पुष्य नक्षत्रमें मन्द मन्द अग्निके द्वारा घृतको पकावे । यह घृत पान करते ही सम्पूर्ण दोषोसे उत्पन्न हुए श्वेतप्रदर, नीलप्रदर और कृष्णप्रदरको नष्ट करता है । तथा कुक्षिशूल, कटिशूल, योनिशूल, सर्वांगशूल, मन्दाग्नि, अरुचि, पांडुरोग, कुशता, श्वास और खौसी इन सबको दूर करता है यह आयुको बढ़ानेवाला, पुष्टिकारक तथा बल और वर्णको प्रसन्न करनेके लिए धन्य है । इस श्रेष्ठ घृतको श्री विष्णुभगवान्ने निर्माण किया है ॥ ५७-६३ ॥

शीतकल्याणघृत ।

कुमुदं पद्मकोशीरं गोधूमा रक्तशालयः । सुद्वपर्णी पयस्या च काश्मरीमधु यष्टिका ॥ ६४ ॥ बलातिबलयोर्मूलमुत्पलं तालमस्तकम् । विदारी शतमूली च शालपर्णी सजीवका ॥ ६५ ॥ फलं त्रपुसबीजानि प्रत्यग्रं कदलीफलम् । एषामर्द्धपलान्भागान्गवां क्षीरं चतुर्गुणम् ॥ ६६ ॥ पानीयं द्विगुणं दत्त्वा घृतप्रस्थं विपाचयेत् । प्रदरे रक्तगुल्मे च रक्तपित्ते हलीमके ॥ ६७ ॥ बहुरूपश्च यत्पित्तं कामलावातशोणिते । अरोचके ज्वरे जीर्णे पाण्डुरोगे मदे भ्रमे ॥ ६८ ॥ तरुणी चाल्पपुष्पा या या च गर्भं न विन्दति । अहन्यहनि च स्त्रीणां

भवति प्रीतिवर्द्धनम् । शीतकल्याणकं नाम परमुक्तं रसायनम् ॥ ६९ ॥

कमोदिनी, कमल, रस, गेहूँ, लाल शालिवान, मुगवन, काकोली, कुम्भेरु, मुलैठी, चिरंटीकी जड़, कंधीकी जड़, ताटकामस्तक, विदारीकद, शतावर, शालिपर्णी, नीलकमल, जीवक, त्रिकला, खीरेके बाँज और केलेकी कर्षी गोभ ये प्रत्येक औपधि दो दो तोले लेकर कल्क बनालेवे । फिर गायका दूध ४ प्रस्थ, जल २ प्रस्थ और गायका घी १ प्रस्थ लेकर सबको एकत्रित करके यथाविधिसे घृतको पकावे । यह घृत-प्रदर, रक्तगुल्म, रक्तपित्त, हलीमक, अनेक प्रकारका पित्त, कामला, वातरक्त, अरुचि, जीर्णज्वर पाण्डुरोग, मद और भ्रम इन रोगोंमें हितकारी है । जो स्त्री अल्पपुष्पवाली होती है और जो गर्भको धारण नहीं कर सकती उनके लिए यह घृत विशेष उपयोगी है इस घृतके प्रभावसे अवश्य गर्भ होता है । तथा दिन प्रतिदिन स्त्रियोंमें प्रीति बढ़ती है । यह शीतकल्याणनामक घृत स्त्रियोंके लिए उत्तम रसायन है ॥ ६४-६९ ॥

शतावरीघृत ।

शतावरीरसप्रस्थं क्षोदयित्वा च पीडयेत् । घृतप्रस्थसमायुक्तं क्षीरं द्विगुणितं तथा ॥ ७० ॥ अन्तः कल्कानिमान्दद्यात्कार्षिकाञ्जुष्णपेषितान् । जीवनीयानि यान्यष्टौ यष्टी चन्दनपद्मके ॥ ७१ ॥ श्वदंष्ट्रा चात्मगुप्ता च बला नागबला तथा । शालपर्णीपृष्टपर्णीविदारी-शारिवाद्यम् ॥ ७२ ॥ शर्करा च समा देया काश्मर्याश्च फलानि च । सम्यक् सिद्धन्तु विज्ञाय तदेतदक्षतारयेत् ७३ ॥ रक्तपित्तविकारेषु वातपित्तकृतेषु च । वातरक्तं क्षयं श्वासं हिक्कां कासश्च दुत्तरम् ॥ ७४ ॥ अंगदाहं शिरोदाहं रक्तपित्तसमुद्भवम् । असृग्दरं सर्वभूतं मूत्रकृच्छ्रश्च दारुणम् ॥ एतात्रोगाञ्छन्नयति भास्करस्तिमिरं यथा ॥ ७५ ॥

शतावरको छेड़ करके उसका रस निचोड़ लेवे ।
ऐसा जनावरका रस ? प्रस्थ, गायका घी ? प्रस्थ,
गायका दूध ? प्रस्थ, तथा जीवनीचगणकी आठ
औषधियाँ, मुलैठी, चन्दन, पच्चाख, गोखुरु, कौँछ,
खिरैदी, नागवला, शालिपर्णी पृश्निपर्णी, विदारि-
कन्द, दोनों गारिवा, मिश्री और कुम्भरेक फल ये
प्रत्येक औषधि एक एक तांला लेकर सबको वारीक
पीसकर कल्क बना लेवे। फिर सबको एकत्रित करके
यथाविधिसे घृतको पकावे । जब वह अच्छेप्रकारसे
पककर सिद्ध होजाय तब उतारकर छान लेवे । यह
शतावरी घृत-रक्तपित्तके विकार, वातपित्तके विकार,
वातरक्त, क्षय, श्वास, हिचकी, दुस्तर खांसी,
रक्तपित्तजनित अंगदाह और गिरोदाह, सर्वदो-
षोत्पन्न प्रदर और दाहण मूत्रकृच्छ्र इन सब रोगोंको
इस प्रकार दूर करना है जिसप्रकार सूर्य अंधकारके
समूहको नष्ट कर देता है ॥ ७०-७५ ॥

मुद्गघृत ।

मुद्गमाषस्य निर्यूहे रास्त्राचित्रकना-
गैः । सिद्धं सपिप्पलीविश्वैः सर्पिः
श्रेष्ठमसृग्दरे ॥ ७६ ॥

मूँग और उड़दोके काथमे रायसन, चिता,
सोठ और पीपल इनका कल्क डालकर घृतको
पकावे । इस घृतको प्रदर रोगमें सेवन करना
अत्यन्त हितकारी है ॥ ७६ ॥

शाल्मलीघृत ।

शाल्मलीपुष्पानिर्यासः, पृश्निपर्ण्यस्त-
थैव च । काश्मर्यं चन्दनश्चैषां कल्केन
स्वरेसन च ॥ ७७ ॥ एभिः पचे-
द्घृतप्रस्थमवतार्य सुशतिलम् । पिवे-
त्सर्विदिं नारी सर्वप्रदरशान्तये ॥ ७८

सेमलके फूलोंका गोंद (मोचरस), पृश्निपर्णी,
कुम्भेर और चन्दन इनके कल्क और काथके द्वारा
एक प्रस्थ घृतको पकावे । जब पककर स्वयं जीतल
हो जाय तब उतार लेवे । फिर सर्वप्रकारके प्रदरको
नष्ट करनेके लिये स्त्रियोंको यह घृत सेवन कराना
चाहिये ॥ ७७ ॥ ७८ ॥

काश्मरीघृत ।

काश्मरीबदरानन्तागुडचीमधुकैः शृ-

तम् । आज्ञेन पयसा सिद्धमेतद्
घृतमसृग्दरे ॥ ७९ ॥

कुम्भेर, बेर, अनन्तमूल, गिलोय और मुलैठी
इनके कल्कके द्वारा घकरीके दूधमें घृतको पकावे
यह घृत सेवन करनेसे प्रदररोगमें हित करता है ॥ ७९

सोमरोगका निदान ।

स्त्रीणामतिप्रसंगाद्वा शोकाद्वापि
श्रमादपि । अतिसारकरोगाद्वा गर-
दोषात्तथैव च ॥ ८० ॥ आपः सर्व-
शरीरस्थाः क्षुभ्यन्ति प्रस्रवन्ति च ।
तस्यास्ताः प्रच्युताः स्थानान्मूत्र-
मार्गं व्रजन्ति हि ॥ ८१ ॥

अत्यन्त मैथुन, शोक, परिश्रम, अतिसार और
विपदोप इन सब कारणोंसे स्त्रियोंके समस्त शरीरमें
रहनेवाला जल क्षोभित होकर गिरता है फिर वह
जल अपने स्थानसे हटकर मूत्रमार्गसे निकलता
है ॥ ८० ॥ ८१ ॥

सोमरोगके लक्षण ।

प्रसन्ना निर्मलाः शीता निर्गन्धा नी-
रुजाः सिताः । स्रवन्ति चातिमा-
त्रन्ताः सा न शक्नोति दुर्बला ॥ ८२ ॥
वेगं धारयितुं तासां न विन्दति सुखं
क्वचित् । शिरसः शिथिलत्वाच्च मु-
खतालुकशोषणम् । मूर्च्छा जृम्भा
प्रलापश्च त्वग्रूक्षा चातिमात्रतः ॥ ८३ ॥
भक्ष्यैर्भोज्यैश्च पेयैश्च तृप्तिं न लभते
सदा । सोमरोग इति ज्ञेयो देहे सो-
मक्षयात्त्रिषयाः ॥ ८४ ॥ शरीरधा-
रणाच्चापि सोमद्रव्याभिः शब्दितः ।
तस्मात्सोमक्षयाद्देहो निश्चेष्टश्च भवे-
त्सदा ॥ ८५ ॥

प्रसन्न, निर्मल, शीतल, गंधरहित, स्वच्छ, सफेद
और पीडारीहत जल अत्यन्त वहता है । इससे
दुर्बल होजानेके कारण वह स्त्री उस जलके वेगको
रोकनेमें असमर्थ होनेसे निरंतर धैर्यन रहती है ।
मस्तक शिथिल होजाता है, मुख और तालु सूखने

लगता है, मूर्च्छा होती है, जम्भाई आती है, प्रलाप होता है, त्वचा अत्यन्त रुखी होजाती और भ्रम्य भोज्य तथा पीनेके पदार्थोंसे कभी तृप्ति नहीं होती। स्त्रियोंके शरीरमेंसे सोमधातुका क्षय होनेसे इसको सोमरोग कहते हैं। अर्थात् यह जल शरीरका धारण करनेवाला होनेसे सोम कहाता है। और यह रोग इसी सोम धातुका क्षयरूप है इसलिए सोमके क्षय होनेसे शरीर सदैव गिथिल रहता है ॥ ८२-८५ ॥

सोमरोगकी चिकित्सा ।

कदलीनां फलं पक्वं धानीफलरसं मधु । शर्करासहितं खादेत्सोमधारणमुत्तमम् ॥ ८६ ॥

केलेकी पकी फली, आमलोका रस, गहद और मिश्री इन सबको एकत्र मिलाकर सेवन करे सोमरोगको नष्ट करनेके लिए यह उत्तम प्रयोग है ८६

माषचूर्णं समधुकं विदारीं मधुशर्कराम् । पायसा पाययेत्प्रातस्त्वपां धारणमुत्तमम् ॥ ८७ ॥

उडदेका चूर्ण, मुलैठी, विदारीकन्द, गहद और मिश्री इन सबको एकत्र मिलाकर दूधके साथ प्रातः काल सेवन करावे तो सोमरोग नष्ट होता है ॥ ८७ ॥

कदलीनां फलं पक्वं विदारीश्च शतावरीम् । क्षीरेण पाययेत्प्रातस्त्वपां धारणमुत्तमम् ॥ ८८ ॥

केलेकी पकी फली, विदारीकन्द और शतावर इन सबको एकत्र मिलाकर दूधके साथ प्रातः काल सेवन करानेसे सोमरोग नष्ट होता है ॥ ८८ ॥

स एव सरुजः सोमो मूत्रेण स्रवते मुहुः । तत्रैलापत्रचूर्णेन पाययेत्सुरां सुराम् ॥ ८९ ॥

यदि इस सोमरोगमें विशेष पीडा हो और बार-बार मूत्र स्रवता हो तो इलायची और तेजपात इनके चूर्णके साथ मदिराका पान करना चाहिये ॥ ८९ ॥

मूत्रातिसारके लक्षण ।

सोमलक्षणसंसृष्टाः कालातिक्रान्तयोगतः । सातिक्रान्तक्रमेणैव स्रवन्मूत्रमभीक्ष्णशः ॥ ९० ॥

बहुत दिनोंके सोमरोगमें जब मूत्र अत्यन्त बहने लगता है तब उसको मूत्रातिसार कहते हैं। यह मूत्रातिसार बलका अत्यन्त नाश करता है ॥ ९० ॥

स्त्रियोंके विद्वेषकी चिकित्सा ।

अथ स्त्रीणां विद्वेषमविधास्ये । स त्रिविधो विद्वेषः, तद्यथा-दैवकृतः अदक्षपुरुषत्वयोगकृतः सपत्नीकृतश्चेति । तत्र प्रथमो विरुद्धनक्षत्रकृतपरिणयिन्नादिदोषादादित एव जायते । द्वितीयश्चाविदग्धपुरुषसंयोगात् । तृतीयस्त्वौषधकृतः अनियत एव काले प्रजायते । तत्र प्रथमो त्रिवाहकालिक इति तद्धोमः कर्तव्यः । ततः प्रदोष भक्तपुत्तलिकां कृत्वा गन्धधूपादिपूजितां वस्त्रावृतजीवन्तिकां दीपसहितां शुक्लपुष्पमालार्चितां कुशचण्डिकां कोणेषु च चतुर्वर्णध्वजायुक्ताम् । तस्या दर्शनं पूजनञ्च कृत्वा विनयान्वितो मन्त्रं जपेत् । ततः कुमारीश्च पूजयेद्भोजयेच्च । ततः संपद्यते सुखम् । ॐ ह्रूं ह्रूं वं वशीकरणं कुरुष्व स्वाहा । इति वशीकरणमन्त्रः ।

अब स्त्रियोंके विद्वेषको कहते हैं। (विद्वेष शब्दका अर्थ यहां अशुभ होनेका है) । वह विद्वेष तीन प्रकारका होता है। एक प्रारब्धजनित, दूसरा मूर्खपुरुषके प्रसंगसे उत्पन्न हुआ और तीसरा सपत्नी अर्थात् सौतनके करानेसे होता है। इनमें पहिला विवाहके समय पतिके अथवा अपने विरुद्ध नक्षत्रादिके दोषसे उत्पन्न होता है। दूसरा अविदग्ध अर्थात् मूर्खपुरुषके साथ ससर्ग करानेसे होता है और तीसरा सौतनका कराया हुआ औषधादिके प्रयोगसे विनासमय होता है। इनमेंसे प्रथम प्रारब्धजनित विद्वेषको शांत करनेके लिये हवन करे। फिर प्रातः काल भातकी पुतली बनाकर उसकी सुगन्धित पदार्थ और धूपादिकोसे पूजा करके उसको बलमें लपेट कर प्रातिमा रखनेके जीवातिका नामक पात्रमें

धारण करे और उसके सामने दीपक रखे । फिर सफेद फूलोंकी मालासे उसकी पूजा करे और उसके चारों कोणोंमें कुशाकी चार देवियोंकी मूर्तियाँ स्थापन करे, और उनके हाथमें चार रंगकी ध्वजा दे देवे । फिर उसका विद्वेषवाली स्त्री दर्शन और पूजन करके विनयपूर्वक मन्त्रको जपे । फिर कुमारी (क्वारीकन्याओ) की पूजा करे और उनको भोजन करावे । इसप्रकार करनेसे सुख उत्पन्न होता है । ॐ ह्रूं ह्रूं वं वशीकरणं कुरुष्व स्वाहा— यह वशीकरणमन्त्र है ।

द्वितीये च लज्जालुमूलेन गजान्वितेन कर्पूरमिश्रितेन वराङ्गे प्रलेपं कृत्वा प्रसिद्धनरनारीविभ्रमधूमधूपेन कृताङ्गधूपः । समालम्बनादिकृतशृङ्गारकावेशः । नारीं गृहसम्बन्धबद्धस्त्रियं चाटुवचनां विषयोचितां समाहितः पुरुषोऽनिच्छन्तीमभिगच्छेत् । कुमारीणाञ्च भोजनमुत्सृजेत् । ततः सम्पद्यते शुभम् ।

दूसरे मूर्खपुरुषजनित विद्वेषमें-लज्जावन्तीकी जड, नागकेशर और कपूर इन तीनोंको एकत्र मिलाकर लिङ्गके ऊपर लेप करके प्रसिद्ध नरनारियोंके विलास रूपी धूपसे सर्वांगके धूपित किये हुए और केशर, कस्तूरी आदि प्रलेपके द्वारा शरीरकी शङ्गार किये हुए स्वस्थ पति, घरकी सखीसहेलियोंके सहित प्रिय वचन बोलनेवाली, विषयभोगके लिये उपयुक्त और स्वयं विषयकी इच्छा नहीं करती हुई भी स्त्रीके साथ सम्भोग करे । और कुमारी (क्वारी) कन्याओंको भोजन देवे तो इस प्रकार करनेसे उस स्त्रीको सुख उत्पन्न होता है ।

तृतीये प्रियंगुकमयूरशिखाश्वेतपुनर्नवामूलं पिष्ट्वा छागलपयसालोडच योनिं प्रक्षालयेत् । पिष्टसूकरमांसेन रचितां स्त्रीप्रमाणां पुत्तलिकां कृत्वा गन्धादिना समालम्ब्य पूजयित्वा स्त्रियं निर्मथायित्वा श्मशाने रात्रिप्रहरैकगते दापयेत् । कुमारीश्च पूज-

येत् । ततः सम्पद्यते शुभम् । ॐ घोराख्यै प्रियजननि ह्रूं स्वाहा । इत्यपि वशीकरणमन्त्रः । इति नागार्जुनकृतौ योगसारे स्त्रीदोषचिकित्सापरिच्छेदः ।

और तीसरे मपत्नीककृतविद्वेषमें-फूलप्रियंगू, मोर-शिखा और श्वेतपुनर्नवाकी जडको पीसकर बकरीके दूधमें घोलकर उससे योनिको धोवे । फिर सूअरके मांसको पीसकर उससे स्त्रीके बराबर पुतली बनाकर उसको गन्धादिक द्रव्योंसे सुवासित करके पूजा करे । पश्चात् उसे स्त्रीके ऊपर उतारकर एक प्रहर रात्रिके व्यतीत होनेपर श्मशान भूमिमें रख आवे । फिर कुमारीकी पूजा करे तो इस प्रकार करनेसे सुख उत्पन्न होता है । “ ॐ घोराख्यै प्रिय जननि ह्रूं स्वाहा—” यह भी वशीकरणमन्त्र है । यह नागार्जुनकृत योगसारगत स्त्रीरोग चिकित्साका परिच्छेद समाप्त हुआ ।

अथ योनिरोगका निदान ।

विंशतिर्व्यापदो योनेर्निर्दिष्टा रोगसंग्रहे । मिथ्याचारेण ताः स्त्रीणां प्रदुष्टेनार्त्तवेन च ॥ ९१ ॥ जायन्ते बीजदोषाञ्च दैवाञ्च शृणु ताः पृथक् ॥ ९२ ॥

मिथ्या आहार और विहारके करनेसे, रजके दूषित होनेसे, बीजके दोषसे और प्रारब्धके योगसे स्त्रियोंकी योनिमें बीस प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं ऐसा रोगनिदानमें कहा गया है अब उनको पृथक् कहते हैं, सुनो ॥ ९१ ॥ ९२ ॥

सा फेनिलमुदावर्त्ता रजः कृच्छ्रेण मुञ्चति । बन्ध्यां नष्टार्त्तवां विद्याद्विप्लुतां नित्यवेदनाम् ॥ ९३ ॥

जिसमें ज्ञागोयुक्त मासिकधर्मका रुधिर अत्यन्त कष्टसे निकलता है उसको उदावर्त्तयोनि कहते हैं । जिसका रजोधर्म नष्ट होगया हो उसको बन्ध्या कहते हैं । जिसकी योनिमें सदैव पीडा होती हो उसको विप्लुता योनि कहते हैं ॥ ९३ ॥

परिप्लुतायां भवति ग्राम्यधर्मेण रुग्णशम् । वातला कर्कशा स्तब्धा

शूलनिस्तोदपीडिता । चतसृष्वपि
चाद्यासु भवन्त्यनिलवेदनाः ॥ ९४ ॥

जिसकी योनिमें मैथुन करनेसे अत्यन्त वेदना हो
उसको परिणुता कहते हैं । वातलायोनि सूखी तथा
कठोर होती है और उसमें सुई चुभाने सरीखी पीडा
होती है । पहले जो उदावर्त्तादि चार योनि कही है
उनमें भी वातसम्बन्धी पीडा होती है परन्तु इस वात-
लामें वातकी अधिक पीडा होती है ॥ ९४ ॥

सदाहं क्षीयते रक्तं यस्यां सा लो-
हितक्षया । सवातसुद्भिरेद्रीजं वामि-
नी रजसा युतम् ॥ ९५ ॥ प्रस्रांसिनी
स्रंसते तु क्षोभिता दुःप्रजायिनी ।
स्थितं स्थितं हन्ति गर्भं पुत्रघ्नी रक्त-
संक्षयात् ॥ ९६ ॥ अत्यन्तपित्तला
योनिर्दाहपाकज्वरान्विता । चतसृ-
ष्वपि चाद्यासु पित्तलिङ्गोच्छ्रयो भ-
वेत् ॥ ९७ ॥ अत्यानंदा न सन्तोषं
ग्राम्यधर्मेण गच्छति । कर्णिन्यां क-
र्णिकायोर्नो श्लेष्मासृग्भ्याश्च जायते
॥ ९८ ॥ मैथुनाचरणात्पूर्वं पुरुषाद-
तिरिच्यते । बहुशश्वातिचरणान्त-
योर्बीजं न विंदति ॥ ९९ ॥ श्लेष्म-
ला पिच्छला योनिः कंडूयुक्ताति-
शीतला । चतसृष्वपि चाद्यासु श्ले-
ष्मलिङ्गोच्छ्रयो भवेत् ॥ १०० ॥

✓ जिस योनिमें दाहसहित रुधिर निकलता है
उसको लोहितक्षया कहते हैं । जिसमेंसे वायु रजके
साथ पुरुषके वीर्यको बाहर निकाल देता है उसको
वामिनी कहते हैं । जो योनि मैथुनके समय अत्यन्त
वर्षित होनेसे बाहरको निकल आती है उसको स्रं-
सनी कहते हैं । वह अत्यन्त कष्टसे प्रसववती होती
है अथवा विफलसन्तानको उत्पन्न करती है । जो
योनि रुधिरके क्षय होनेसे गर्भको गिरा देती है
उसको पुत्रघ्नी कहते हैं । जो योनि अत्यन्त दाह,
पाक और ज्वरसे संयुक्त हो उसको पित्तला कहते
हैं । पहले जो लोहितक्षयादि चार योनि कही है
उनमें पित्तके लक्षण होते हैं । परन्तु पित्तलामें पित्तके
लक्षण अधिक होते हैं । जो अत्यन्त मैथुन करनेसे

भी सन्तोषित नहीं होती उसको अत्यानन्दा कहते
हैं । जिसमें रक्त और कफसे कमलकी कर्णिकाके
समान कर्णिका होती है उसको कर्णिनी कहते हैं ।
जो योनि मैथुनके समय पुरुषके पहले गोणितको
छोडती है उसको चरणा कहते हैं और जो योनि
अनेकवार मैथुन करनेसे पुरुषके पीछे स्खलित होती है
उसको अतिचरणा कहते हैं । इन दोनों योनियोंमें
वीर्य स्थित नहीं होता । जो योनि चिकनी, खुजली-
सहित और अत्यन्त गीतल होती है उसको श्लेष्म-
ला योनि कहते हैं । इससे पहले जो अत्यानन्दादिक
चार योनि कही है उनमें भी कफके लक्षण होते हैं ।
परन्तु श्लेष्मलायोनिमें कफ अधिक हंता है ॥
॥ ९५-१०० ॥

अनार्त्तवाऽस्तनी षण्ठी खरस्पर्शा
च मैथुने ।

जो योनि रजरहित रहती हो और मैथुनके सम-
य खरदरी मालूम होती हो उसको षण्ठी कहते हैं ।
इस योनिवाली स्त्रीके स्तन छोटे होते हैं ।

अतिकायगृहीतायास्तरुण्यास्त्व-
ण्डिनी भवेत् ॥ १०१ ॥

जिसकी योनि का छिद्र छोटा हो और वह स्त्री
मोटे लिंगवाले पुरुषके साथ मैथुन करे तो उसकी
योनि वृषणके समान लटक आती है उसको अंडिनी-
योनि कहते हैं ॥ १०१ ॥

विवृताऽतिमहायोनिः सूचीवक्रा-
तिसंवृता । सर्वलिङ्गसमुत्थाना स-
र्वदोषप्रकोपजा ॥ १०२ ॥

जिस योनि का बहुत बड़ा छिद्र हो उसको विवृता
कहते हैं । जिस योनि का बहुत वारीक छिद्र हो
उसको सूचीवक्रा कहते हैं । जिस योनिमें सम्पूर्ण
दोषोंके कोपके कारण सम्पूर्ण दोषोंके लक्षण हों
उसको त्रिदोषिणी योनि कहते हैं ॥ १०२ ॥

चतसृष्वपि चाद्यासु सर्वलिङ्गोच्छ्रयो
भवेत् । पञ्चसाध्या भवन्तीह योनयः
सर्वदोषजाः ॥ १०३ ॥

यद्यपि उपर्युक्त चारो प्रकारकी योनियोंमें तीनों
दोषोंके लक्षण होते हैं, तथापि इस पाँचवे प्रकारकी
योनिमें त्रिदोषके लक्षण विशेष होते हैं ॥ १०३ ॥

योनिरोगकी चिकित्सा ।

योनिव्यापत्सु भूयिष्ठं कर्तव्यं कर्म
वातजित् । स्नेहस्वेदनबस्त्यादि वि-
शेषाद्वातजासु च ॥ १०४ ॥

सर्व प्रकारके योनिरोगोंमें वातनाशक कर्म, एवं स्नेहन, स्वेदन और वस्तिकर्म ये सब प्रयोग करने चाहिए । परन्तु, वातजयोनिरोगोंमें इनको विशेष रूपसे प्रयोग करना चाहिए ॥ १०४ ॥

स्निग्धस्वित्रां तथा योनिं दुःस्थितां
स्थापयेच्च ताम् । मधुरौषधसंसिद्धा-
न्वेशवारांश्च योनिषु ॥ १०५ ॥

प्रथम योनिको स्निग्ध और स्वेदित करके इधर उधर टेढ़ी या तिरछी हो गई हो तो अथवा बाहर निकल आई हो तो उसको यथास्थानमें स्थापित करो । तथा फिर मधुर औषधियोंके द्वारा बेसवार बनाकर उसको योनिमें प्रवेश करे ॥ १०५ ॥

निक्षिप्य धारयेच्चापि पिचुतैलं यथा-
बलम् । योनिशूलरुजादौःस्थ्यशो-
फलावप्रशान्तये ॥ १०६ ॥

सईके फायको तेलमें भिजोकर बलानुसार योनि-
के भीतर रक्खे । इससे योनिका शूल, पीडा, योनि-
की दुष्टता, सूजन और योनिका स्राव ये सब विकार दूर होजाते हैं ॥ १०६ ॥

कर्णिन्यां वर्त्तयो देया शोधनद्रव्य-
संयुताः ॥ १०७ ॥

कर्णिनीयोनिमें शोधनद्रव्योंकी वत्ती बनाकर उन-
को योनिमें रक्खे ॥ १०७ ॥

संसनीं वै घृताभ्यक्तां क्षीरस्वित्रां प्र-
शान्तयेत् । विधाय वेशवारैश्च ततो
बन्धं समाचरेत् ॥ १०८ ॥

संसनीयोनिमें घृत लगाकर उसको गरम दूधसे
स्वेदित करे, फिर बेसवार भरकर बाँधदेवे ॥ १०८ ॥

पाणिना नामयेज्जिह्वां संवृतां वर्ध-
येत्पुनः । प्रवेशयेन्निःसृताश्च विच्छ-
तां परिवर्जयत ॥ १०९ ॥

बक्र अर्थात् टेढ़ी योनिकी हाथसे नवावे और सं-
कुचित अर्थात् लुप्तयोनिको बारम्बार बढावे तर्था वा-

हरको निकलीहुई योनिको भीतरको प्रविष्ट करे और
विच्छत (पिञ्चित) योनिको त्याग देवे ॥ १०९ ॥

वचोपकुञ्जिकाजाजीकृष्णावृषकसैन्ध-
वम् । अजमोदां यवक्षारं चित्रकं
शर्करान्वितम् ॥ ११० ॥ पिष्ट्वा प्रस-
न्नयालोड्य खादेत्तद्घृतभर्जितम् ।
योनिपार्श्वार्त्तिहृद्रोगगुल्मार्शोबिनि-
वृत्तये ॥ १११ ॥

वच, कलौजी, जीरा, पीपल, अड्डसा, सैधानमक,
अजमोद, जवाखार, चीता और मिश्री इन सबको
एकत्र पीसकर और घीमें भूनकर प्रसन्नानामक
मदिरामें आलोडन करके पान लरे । इससे योनि-
पार्श्वकी पीडा, हृदयरोग, गुल्म और बवासीर नष्ट
होता है ॥ ११० ॥ १११ ॥

सुखं नारी पिबेत्काले योनिशूलनि-
पीडिता । रास्नाश्वगन्धावृषकैः शृतं
शूलहरं पयः । गुडूचीत्रिफलादन्ती-
कायैश्च परिषेचनम् ॥ ११२ ॥

रायसन, असगन्ध और अड्डसा इनको दूधमें पका
कर स्त्री प्रतिदिन प्रातःकाल पान करे तथा गिऊँद,
त्रिफला और दूती इनके काथसे योनिको सेचन करे
तो योनिशूल नष्ट होता है ॥ ११२ ॥

सुषवीमूलविलेपात्प्रविष्टयोनिस्तु भ-
वति निस्सरणम् । मूषकवसयाभ्य-
ङ्गो निस्सृतयोनिः प्रवेशाय ॥ ११३ ॥

करेलेकी जडको पीसकर लेप करनेसे भीतरको
प्रविष्ट हुई योनि बाहरको निकल आती है । चूहेकी
चर्चिका लेप करनेसे बाहरको निकलीहुई योनि भी-
तरको प्रविष्ट होजाती है ॥ ११३ ॥

गुडूच्यादिघृत ।

गुडूचीत्रिफला-भीरुशुष्कनासानि-
शाह्वयैः । श्रीपर्णीशैर्यकद्राक्षाका-
समर्दकविल्वकैः ॥ ११४ ॥ पल्लव-
कान्वितैरक्षसभैः प्रस्थो घृतशृतः ।
योनिवातविकारघ्नो गर्भदः परमो
भवेत् ॥ ११५ ॥

गिलोय, त्रिफला, शतावर, ज्योनाक, हलदी, अरणी, पियावॉसा, दाख, कसौदी, बेलगिरी और फालसे ये प्रत्येक औषधि एक १ तोला लेकर इनके कल्कके द्वारा एक प्रस्थ घृतको पकावे । यह घृत-योनिरोग और वातके विकारोको दूर करता है तथा गर्भको उत्पन्न करता है ॥ ११४ ॥ ११५ ॥

गुडूच्यादितैल ।

तैलप्रस्थं गवां सूत्रे क्षीरे द्विगुणिते पचेत् । गुडूच्यादेस्तु कल्केन तद्भुक्त-
श्च भिषग्वरः ॥ वातार्तायां पिचुं
दद्याद्योनौ संचारयेत्सदा ॥ ११६ ॥

तिलके १ प्रस्थ तेलको १ प्रस्थ गोमूत्र और २ प्रस्थ दूधमे गिलोयके कल्कके साथ डालकर विधिपूर्वक तेलको पकावे इस तेलके वातजनित योनिकी पीडा न बार बार फाये रखनेसे शान्ति होती है ११६ ॥

नताद्यतैल ।

नतवार्ताकिनीकुष्ठसैन्धवामरदारु-
भिः । तैलप्रसाधितो धार्यः पिचु-
र्योनौ रुजापहः ॥ ११७ ॥

तगर, कटेरी, कूठ, सैधानमक, और देवदारु इनके कल्कके द्वारा तेलको पकावे । इस तेलके फाये योनिमे रखनेसे योनिकी पीडा दूर होती है ॥ ११७ ॥

पित्तलानान्तु योनीनां सेकाभ्यङ्ग-
पिचुक्रियाः । शीताः पित्तहराः
कार्याः स्नेहनार्थं घृतानि च ॥ ११८ ॥

पित्तजनितयोनिरोगमे सेचन, अभ्यग और फायेको रखना ये सब शतिल और पित्तनाशक प्रयोग करे । तथा स्नेहके लिये घृतप्रयोग करे ॥ ११८ ॥

वरीघृतं बलातैलं युञ्ज्यात्पित्तविका-
रनुत । दोषं जात्वाऽऽसृजं योज्यं प्रद-
घ्नं क्रियाक्रमम् ॥ ११९ ॥

शतावरीघृत और बलातेल इनको प्रयोग करनेमे पित्तजनित विकार नष्ट होते है । तथा दोषको जानकर रक्तजयोनिरोगमे प्रवरनाशक चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ११९ ॥

काश्मरीकुटजकांथे सिद्धमुत्तरब-
स्तिना । रक्तयोन्यरजस्का याऽपुत्रा
तासां हितं घृतम् ॥ १२० ॥

कुम्भेर और कुडुके काथमे घृतको सिद्ध करके उत्तरवस्तिके द्वारा प्रयोग करे । यह घृत-रक्तजनित योनिरोग, आर्तवरहित स्त्री और बिना सन्तानवाली स्त्रियोको अत्यन्त हितकारी है ॥ १२० ॥

योन्यां बलासद्दुष्टायां सर्वं रूक्षोष्ण-
मौषधम् । तैलं सिन्धुयवान्नश्च यथा-
रिष्टश्च योजयेत् ॥ १२१ ॥

कफजन्ययोनिरोगमे समस्त रूक्ष और उष्ण औष-
धे प्रयोग करे । तथा कफनाशक तेल, सैधानमक,
यवान्न और अरिष्ट ये सब प्रयोग करे ॥ १२१ ॥

पिप्पल्या मरिचैर्भाषैः शताह्वाकुष्ठ-
सैन्धवैः । वर्तिस्तुल्या प्रदेशिन्या
धार्या योनिविशोधिनी ॥ १२२ ॥

पीपल, कालीमिरच, उडद, शतावर, कूठ और सैधा-
नमक इनकी अंगुलीकी वराबर बत्ती बनाकर योनिमे
रक्खे तो योनि गुद्व होजाती है ॥ १२२ ॥

हिंस्त्राकल्कन्तु वातार्ता कोष्णमभ्य-
ज्य धारयेत् । पञ्चवल्कस्य पित्तार्ता
श्यामार्दीनां कफार्दिना ॥ १२३ ॥

वातसे पीडित योनिरोगवाली स्त्री हींगके कल्कको मन्दोष्ण घृतमे मिलाकर योनिमे धारण करे । पित्तसे पीडित योनिरोगमे पंचवल्कके कल्कको घृतमे मिलाकर धारण करे और कफजन्ययोनिरोगवाली स्त्री ज्यामादिक औषधियोके कल्कको घृतमे मिलाकर योनिमे धारण करे ॥ १२३ ॥

स्तब्धायां कर्कशायाश्च कुय्यान्मा-
द्र्वकारकम् । सन्निपातसमुत्थायां
क्रमं साधारणं हितम् ॥ १२४ ॥

स्तब्ध और कर्कशयोनिमे मृदुताकरनेवाली चिकि-
त्सा करे और सन्निपातजन्य योनिरोगमे साधारण
क्रिया करे ॥ १२४ ॥

पला सधातकीजम्बूसमझामोचस-
र्जकम् । दुर्गन्धे पिच्छले स्वित्रे स्त-
म्भिते चूर्णभिष्यते ॥ १२५ ॥

इलायची, धायके फूल, जायुनकी मज्जा, मजीठ, मांजरस और राल इन सबको एकत्र पसिकर चूर्ण कर ले । योनिंकी दुर्गंधता, पिच्छिलता, स्विन्नता और स्तम्भतासे यह चूर्ण योनिमें रखनेसे जीव उपकार करता है ॥ १२५ ॥

**दुर्गन्धानां कषायः स्यात्तैलं कल्कस्तथै-
व च । चूर्णो वा सर्वगन्धानां पूति-
गन्ध्यापकर्षणम् ॥ २२६ ॥**

समस्त सुगन्धित पदार्थोंका काथ, तेल, या कल्क अथवा चूर्ण बनाकर योनिमें प्रयोग करनेसे दुर्गंध दूर होजाती है ॥ १२६ ॥

अथ गर्भप्रदयोग ।

लक्ष्मणाद्यवृत ।

लक्ष्मणा चन्दनं लोध्रमुशीरं पद्मकं शटी । द्वे हरिद्रे वचा कूष्ठं पद्मकेश-
रमुत्पलम् ॥ १२७ ॥ शारिरे द्वे वि-
डङ्गानि सुमनः कुसुमानि च । मां-
सी दारु श्वदंष्ट्रा च रेणुकं चोत्पलं
तथा ॥ १२८ ॥ मधुकं शतपुष्पा च
मात्रैषां कार्षिका भवेत् । एभिर्वाज-
वृतप्रस्थं क्षीरं दत्त्वा चतुर्गुणम् । त-
त्कषायं दशगुणं स्नेहपाकविधिं प-
चेत् ॥ १२९ ॥ गुणांस्तस्य प्रवक्ष्या-
मि वृतस्यास्य महात्मनः । गर्भि-
णीनाञ्च नारीणां पानाभ्यञ्जनभोज-
नैः ॥ १३० ॥ बालानां ग्रहजुष्टानां
वृतमेतत्प्रशस्यते । बन्ध्यापुष्टिप्रदं
पौष्ट्यमपुत्राणाञ्च पुत्रदम् ॥ १३१ ॥
श्रेष्ठं वा योनिरोगे स्यादसृग्दरवि-
नाशनम् । यन्मया निर्भितं ह्येतल्ल-
क्ष्मणाद्यं वृतं महत् ॥ १३२ ॥

लक्ष्मणा, (सफेद कटेरी), चन्दन, लोध, खस, पद्माख, कचूर, हल्दी, दारुहल्दी, वचा, कूठ, कम-
लकेसर, कमल, उमवा, अनन्तमूल, वायविडग,
चमेलीक फूल, वालुड, देवदारु, गोखरु, रेणुका,
कमोदिनी मुलैठी और सौफ इन औषधियोंको
एक एक तोला लेकर कल्क बना लेवे । फिर बकरी-

का घृत १ प्रस्थ, दूध ४ प्रस्थ और उपर्युक्त कल्क-
वाली औषधियोंका ही काथ १० प्रस्थ लेवे । इन
सबका एकत्र मिलाकर स्नेहपाककी विधिसे घृतको
पकावे । अब इस श्रेष्ठ घृतके लक्षण कहता हूँ ।
इसको गर्भवती स्त्रियोंको पान और अभ्यंग तथा
भोजनके द्वारा प्रयोग करावे । मैंने (ग्रन्थकार)
जो यह महत् लक्ष्मणाद्य घृत निर्माण किया है, यह
ग्रहप्रसित बालकोंको अत्यन्त हितकारी है तथा बन्ध्या
स्त्रियोंको पुष्टि देनेवाला और अपुत्रवाली स्त्रियोंको
हृष्ट पुष्ट पुत्र देनेवाला एव योनिरोगमें हितकारी और
प्रदरको नष्ट करनेवाला है ॥ १२७-१३२ ॥

फलवृत ।

सहचरे द्वे त्रिफलां गुडूचीं सपुनर्न-
वाम् । शुकनासां हरिद्रे द्वे रास्नां
मेदां शतावरीम् ॥ १३३ ॥ कल्की-
कृत्य वृतप्रस्थं पचेत्क्षीरचतुर्गुणम् ।
तत्सिद्धं प्रषिन्नारी योनिशूलनि-
पीडिता ॥ १३४ ॥ पीडिता चलिता
योनिर्निःसृता विवृता च या । पि-
त्तयोनिश्च विस्त्रस्ता षण्ढायोनिश्च या
स्मृता ॥ १३५ ॥ प्रपद्यन्ते तु ताः
स्थानं गर्भं गृह्णन्ति चासकृत् । एत-
त्फलवृतं नाम योनिदोषहरं परम् ॥ १३६ ॥

दोनो प्रकारका पियायासा, त्रिफला, गिलोय, पुन-
र्नवा, ज्योनाक, हलदी, दारुहलदी, रायसन, मेदा,
और शतावर इनके कल्कके द्वारा एक प्रस्थ घृतको
चांगुने दूधमें पकावे । इस प्रकार इस घृतको सिद्ध
कर योनिशूलसे पीडितयोनि चलायमानयोनि, तथा
निःसृतयोनि, विवृतयोनि, पिजत्तयोनि, विस्त्रस्तयोनि
और षण्ढयोनिवाली स्त्रियोंको पान करना चाहिये ।
इससे योनि यथा स्थानमें प्राप्त होकर समस्त योनि-
रोग जीव दूर होते हैं और वे योनियों फिर वारम्बार
गर्भको धारण करती हैं । यह फलघृत सबप्रकारके
योनिदोषोंका दूर करनेके लिए अत्यन्त श्रेष्ठ
है ॥ १३३-१३६ ॥

गर्भोत्पादनविधि ।

एवं योनिषु शुद्धासु गर्भं विन्दन्ति
योषितः । अदुष्टे प्राकृते बीजे बी-
जोपक्रमणे सति ॥ १३७ ॥

इस प्रकार योनिके शुद्ध होजानेपर और वीजके दूषित न होनेपर, स्वभावसे शुद्ध होनेपर अथवा औषध आदिसे शुद्ध करनेपर स्त्री गर्भको धारण करती है ॥ १३७ ॥

वीजस्य प्लवनं न स्याद् यदि मूत्रञ्च फेनिलम् । पुमान्स्याल्लक्षणैरेतैर्विपरीतैस्तु षण्ठकः ॥ १३८ ॥

जो वीज जलमें डालनेसे न डूबे और उसका मूत्र झगोवाला हो तो उसको पुरुष जानना और जिसका वीज जलमें डालनेसे डूबजाय और मूत्रमें झाग न उठे उसको नपुंसक जानना चाहिए ॥ १३८ ॥

शिशुः स्याच्छुक्रबाहुल्याद्बुहिता चार्तत्र धिके । नपुंसकं तयोः साभ्ये यथेच्छा परमेश्वरी ॥ १३९ ॥

शुक्रकी बाहुल्यतासे पुत्र उत्पन्न होता है और आर्त-वर्ती अधिकतासे कन्या उत्पन्न होती है । और दोनोंकी समतासे नपुंसक सन्तान उत्पन्न होती या जैसी परमेश्वरकी इच्छा वह होना है ॥ १३९ ॥

सक्षीरशाल्यन्नभुजा तिलमाषोत्तरा-
शना । प्रमदा समुदा सेव्या चैमे
ह्युच्चार्य्य मन्त्रके ॥ १४० ॥

दूध और गालिघानके चावलोका भोजन करके अथवा तिल और उडद इनका भोजन करके निम्न-लिखित मंत्रको पढ़कर आनन्दपूर्वक स्त्रीको सेवन करे ॥ १४० ॥

“ ॐ अहिरसि आयुरसि सर्वतः
प्रतिष्ठासि धाता त्वा दधातु ब्रह्मव-
र्चसे भवेदिति । ॐ ब्रह्माप्रजापतिर्वि-
ष्णुः सोमः सूर्यस्तथाश्विनौ । भगो-
ऽथमित्रावरुणौ वीरं दधतु मे सुत-
मितीमौ द्वौ मन्त्रौ पठेदिति ॥ ”

और “अहिरसि आयुरसि सर्वतः प्रतिष्ठासि धाता त्वा दधातु ब्रह्मवर्चसे भवेदिति । ॐ ब्रह्मा प्रजापति-विष्णु सोम सूर्यस्तथाश्विनौ । भगोऽथ मित्रावरुणौ वीर दधतु मे सुतमितीमौ द्वौ मन्त्रौ ”

उच्चित्ताननदेहा स्त्री तिष्ठेद्रत्याःश्रमं
स्यजेत् । एवं सा सुतमाप्नोति रूपा-
युर्बलशालिनम् ॥ १४१ ॥

फिर मैथुनके अन्तमें स्त्री सीधा मुख और सीधा शरीर करके रतिके श्रमको छोड़कर गयन करे । इस प्रकार करनेसे वह रूप बल और दीर्घायुमम्पन्न पुत्रको उत्पन्न करती है ॥ १४१ ॥

पुण्ये पुत्तलिकां कृत्वा हेमां वह्निप्र-
तापिताम् । क्षीरं निर्वाप्य संतप्तं
पिबेद् दुग्धं पलाष्टकम् ॥ १४२ ॥

पुण्यनक्षत्रमें सोनेकी पुतली बनाकर उसको आग्निसे गरम करके दूधमें बुझावे । ऐसे ३२ तोले दूधको पान करे ॥ १४२ ॥

लक्ष्मणां वटशुङ्गान्वा पिष्ट्वा क्षीरेण
बिन्दुकान् । सर्वति पुत्रकालायै स-
व्येतरपुटे क्षिपेत् ॥ सव्ये नासापुटे
कन्यां लभेत्रीमसंशयम् ॥ १४३ ॥

लक्ष्मणाकी जड़ या वडके अंकुरोंको दूधमें पिस-कर बत्ती द्वारा उसकी बूद दहिने नासिकाके छिद्रमें डालनेसे पुत्र उत्पन्न होता है । और बाँये नासिकाके छिद्रमें डालनेसे कन्या उत्पन्न होती है ॥ १४३ ॥

बलामतिबलां चैव शर्करां मधुय-
ष्टिकाम् । क्षीरं मधु घृतं चैव पतिं
गर्भप्रदं भवेत् ॥ १४४ ॥

खिरैटी, कंधी, मिश्री, मुलैठी, दूध, शहद और घृत इन सबका एकत्र मिलाकर रजोधर्मसे शुद्ध होनेके पश्चात् पान करनेसे गर्भकी प्राप्ति होती है ॥ १४४ ॥

नागकेशरपूगास्थिचूर्णं वा गर्भदं
परम् ॥ १४५ ॥

नागकेशर और सुपारी इनका चूर्ण भोजन करनेसे गर्भ उत्पन्न होता है ॥ १४५ ॥

काथेन ह्यगन्धायाः साधितं सघृतं
पयः । ऋतुस्नाताऽबला पीत्वा गर्भं
धत्ते न संशयः ॥ १४६ ॥

असंगंधके काथके द्वारा दूधमें घृतको पकावे । इस घृतको ऋतुकालके अन्तमें पान करनेसे स्त्री अवश्य गर्भवती होती है ॥ १४६ ॥

पिप्पली शृङ्गवेरञ्च मरिचं केशरं त-
था । घृतेन सह पातव्यं वन्ध्यागर्भ-
प्रदं परम् ॥ १४७ ॥

पीपल, अदरक, कालीमिरच और नागकेसर इन सबको एकत्र चूर्ण करके घृतके साथ पान करनेसे वन्यास्त्रीके भी गर्भ उत्पन्न होता है ॥ १४७ ॥

तिलतैलदुग्धफाणितदधिघृतमेकत्र पाणिना मथितम् । पीतं सपिप्पलीकं जनयति वन्ध्याप्यपत्यमाशुतरम् ॥ १४८ ॥

तिलका तेल, दूध, राव, दही और घी इन सबको एकत्र हाथसे मथकरके पीपलका चूर्ण डालकर सेवन करनेसे वन्यास्त्रीके भी शीघ्र पुत्र उत्पन्न होता है ॥ १४८ ॥

पत्रमेकं पलाशस्य गर्भिणी पयसान्वितम् । पीत्वा च लभते पुत्रं वीर्यवन्तमसंशयः ॥ १४९ ॥

केवल एक टाकके पत्तेको दूधसे पीसकर पान करनेसे गर्भिणीस्त्री निस्सन्देह अत्यन्त सामर्थ्यवान् पुत्रको प्राप्त करती है ॥ १४९ ॥

पुष्योद्धृतं लक्ष्मणाया मूलं पिष्टञ्च कन्यया । ऋत्वंते वृतदुग्धाभ्यां पीत्वाप्नोत्यबला सुतम् ॥ १५० ॥

पुष्यनक्षत्रमे लक्ष्मणाकी जड़को उखाडकर और कन्यासे पिसवाकर घृत और दूधके साथ ऋतुकालके अन्तमें पान करनेसे पुत्रको प्राप्त करती है ॥ १५० ॥

तिलतैलकुडवमेकं वृषसलिलसंयुतं पक्कम् । ऋतुकालान्ते पीत्वा गर्भं विदधाति वन्ध्यापि ॥ १५१ ॥

एक कुडवपरिमाण तिलके तेलको अड्डसेके काथके साथ पकाकर ऋतुकालके अन्तमें पान करनेसे वन्या स्त्री भी गर्भको धारण करती है ॥ १५१ ॥

जीवकपुत्रकबीजं क्षीरेण पित्रेत्सपत्रमूलञ्च । दारकनष्टा वनिता जनयति दीर्घायुषं पुत्रम् ॥ १५२ ॥

पतिजियाके बीज, पत्त और जड़को दूधके साथ पीसकर पान करनेसे नष्टहुई सन्तानवाली स्त्री दीर्घायु पुत्रको उत्पन्न करती है ॥ १५२ ॥

क्षीरेण श्वेतवृहतीमूलं नासिकया पित्रेत् । दक्षिणयात्मजार्थं वा कन्यार्थं वामया तथा ॥ १५३ ॥

सफेद कंटरीकी जड़को दूधके साथ पीसकर पुत्र उत्पन्न होनेकी इच्छा हो तो नासिकाके दाहिने छिद्रके द्वारा पान करे और कन्या उत्पन्न होनेकी इच्छा हो तो नासिकाके बाँये छिद्रके द्वारा पान करे ॥ १५३ ॥

पुष्योद्धृतं लक्ष्मणायाश्चक्राङ्गायास्तु कन्यया । पिष्टं मूलं हविर्दुग्धं पीतमृतौ तु पुत्रदम् ॥ १५४ ॥

पुष्यनक्षत्रमें लक्ष्मणाकी जड़ और सुदर्शनकी जड़को उखाडकर कन्याके हाथसे पिसवाकर घी और दूधके साथ मिलाकर ऋतुकालमें पान करे । यह प्रयोग पुत्र प्रदान करता है ॥ १५४ ॥

न्यग्रोधशुङ्गासनकं प्रवालचूर्णञ्च सवर्णवत्सायाः । गोक्षीरं परिपीतं पुत्रं प्रकरोति पुष्यर्क्षे ॥ १५५ ॥

पुष्यनक्षत्रमें बडके अकुर, विजयरार और मूंगेका भस्म इन सबको एक वर्णकी बछेडेवाली गायके दूधके साथ पीसकर पान करनेसे पुत्र उत्पन्न होता है ॥ १५५ ॥

रोमराजी भवेद्यस्या वामपार्श्वेति मूर्च्छिता । कन्यां तस्यां विजानीयादक्षिणं च तथा सुतः ॥ १५६ ॥

जिस गर्भवतीस्त्रीके वामपार्श्वमें रोमोकी पक्ति गिरजाय तो उसके कन्या उत्पन्न होगी और जा दाहिने पार्श्वमें रोमोकी पक्ति गिरजाय तो पुत्र उत्पन्न होगा ऐसा जानना चाहिये ॥ १५६ ॥

वृहत्कल्याणघृत ।

मुस्ता कुष्ठं हरिद्रे द्वे पिप्पलीकटुरोहिणी । काकोली क्षीरकाकोली विडङ्गं त्रिफला वचा ॥ १५७ ॥ मेदा रास्त्राश्वगन्धा च विशाला च त्रियंगुका । द्वे शारिवे शताह्वा च दन्ती मधुकमुत्पलम् ॥ १५८ ॥ अजमोदा महामेदा चन्दनं रक्तचन्दनम् । जातीपुष्पन्तुगाक्षीरीशर्कराहिङ्गुकट्फलम् ॥ १५९ ॥ चतुर्गुणेन पयसा विपचेद्गोमयाग्निना । नक्षत्रे पुष्यसम्पन्ने

आंडे ताम्रमये दृढे ॥ १६० ॥ कलशे
वापि कल्याणे कृतकौतुकमङ्गलः ।
सर्पिरेव नरः पीत्वा स्त्रीषु नित्यं वृ-
षायते ॥ १६१ ॥ एतद्वन्ध्या पिबे-
न्नारी या च कन्या प्रजायिनी । या
चैवास्थिरगर्भा स्याद्या च सूता पुनः
स्थिता ॥ १६२ ॥ अनायुषं वा जन-
येद्या वा जनयते मृतम् ॥ सा नारी
जनयेत्पुत्रं वेदवेदाङ्गपारगम् ॥ १६३ ॥
रूपलावण्यसम्पन्नमजरश्च शतायुषम् ।
बृहत्कल्याणकं सर्पिर्भारद्राजेन भा-
षितम् । अनुक्तं लक्ष्मणामूलं क्षिप-
न्त्यत्र चिकित्सकाः ॥ १६४ ॥

नागरमोथा, कूठ, हलदी, दारुहलदी, पिपली, कुटकी,
काकोली, क्षीरकाकोली, वायविडग, त्रिफला, वच,
मेदा, रायसन, असगन्ध, इद्रायण, फूलप्रियंगू, उसवा,
अनन्तमूल, गतावर, देती, मुलैठी, कमल, अजमोद,
महामेदा, चन्दन, लालचन्दन, चमेलीके फूल, वश-
लोचन, मिथ्री, हीग और कायफल इन सबको स-
मान भाग लेकर ककक वनावे, इस ककके द्वारा
चौगुने दूधमें मन्द मन्द अग्निसे घृतको पकावे ।
इस घृतको उत्तम नौबके दृढपात्रमें भरकर पुण्यन-
क्षत्रमें मंगल कार्य करके पकाना चाहिए । इस
कल्याणनामक घृतको पान करनेसे पुरुष स्त्रियोमें
वृषभके समान नित्य रमण करता है, वन्ध्या स्त्री,
अथवा जिसके कन्या ही उत्पन्न होती हो या जिसके
गर्भ नहीं रहता हो अथवा जिसके गर्भ रहकर नष्ट
होजाता हो या जो मृत मन्तानको उत्पन्न करती हो
अथवा जो अल्पायुपुत्रको उत्पन्न करती हो तो वे
स्त्रियाँ उम घृतको पान करे । इससे वह वेदवेदागके
पारगामी, रूप, लावण्यतायुक्त, अजर और शतायु
पुत्रको उत्पन्न करती है । इस बृहत्कल्याणघृतको
भारद्वाजकपिने कहा है । इसमें लक्ष्मणाकी जडके
न कहनेपर भी वैद्यलोक डालते हैं ॥ १५७-१६४ ॥

बृहत्फलघृत ।

माञ्जिठा मधुकं कुष्ठं त्रिफलाशर्कराव-
लाः । मेदा पयस्या काकोली मूलं
चैवाश्वगन्धजम् ॥ १६५ ॥ अजमो-

दा हरिद्रे द्वे हिङ्गुकटुकरोहिणी । उ-
त्पलं कुमुदं द्राक्षा काकोल्याँ चन्द-
नद्वयम् ॥ १६६ ॥ एतेषां कार्षिकै-
र्भागैर्वृतप्रस्थं विपाचयेत् । शतावरी
रसक्षीरं वृतादेयं चतुर्गुणम् ॥ १६७ ॥
सर्पिरतन्नरः पीत्वा स्त्रीषु नित्यं वृ-
षायते । पुत्रं जनयते नारी मेधादृक्
प्रियदर्शनम् ॥ १६८ ॥ या चैवास्थि-
रगर्भा स्याद्या वा जनयते मृतम् ।
अल्पायुषं वा जनयेद्या च कन्यां प्र-
सूयते ॥ १६९ ॥ योनिदोषे रजोदोषे
परिस्रावे च शस्यते । प्रजावर्द्धन-
मायुष्यं सर्वग्रहनिवारणम् ॥ १७० ॥
नाम्ना फलवृत्तश्चैतदश्विभ्यां परिकी-
र्तितम् । अनुक्तं लक्ष्मणामूलं क्षिप-
न्त्यत्र चिकित्सकाः ॥ १७१ ॥

मजीठ, मुलैठी, कूठ, त्रिफला, मिथ्री, खांड,
खिरैटो, मेदा, विदारीकद, काकोली, असगन्धकी
जड, अजमोद, हलदी, दारुहलदी, हीग, कुटकी,
कमल, कमोदिनी, दाख, दोनो काकोली और दोनो
चन्दन, इन ओषधियोंको एक २ तोला लेकर ककक
वनालेवे। उस ककके साथ एक प्रस्थ घृतको चौगुने
गतावरके रस और चौगुने दूधमें पकावे । इस घृतको
पान करनेसे पुरुष स्त्रियोमें नित्य वृषभके समान
आचरण करता है । स्त्री इस घृतको पान करे तो
वह मेधासम्पन्न और प्रियदर्शन पुत्रको उत्पन्न करती
है। जिन स्त्रियोंके गर्भ स्थिर नहीं रहता, जिनके मृत-
सन्तान उत्पन्न होती है, जिनके अल्पायुसन्तान उत्पन्न
होती है या जिनके कन्याही कन्या उत्पन्न होती है,
उन स्त्रियोंके लिए तथा योनिरोग, रजोदोष और
योनिस्त्राव इन सब रोगोंमें हितकारी है । फलघृत
नामसे प्रसिद्ध यह घृत-सन्तानको बढ़ानेवाला,
अवस्थाको स्थापनकरनेवाला और सम्पूर्ण ग्रहोंको
दूर करनेवाला है । इसको आश्विनोक्तुमारोने निर्माण
किया है । इसमें लक्ष्मणाकी जड न कहनेपर भी
वैद्य लोक डालते हैं ॥ १६५-१७१ ॥

शतावरीघृत ।

शतावरीयां विदार्याश्च तथा भाषा-

त्मगुप्तयोः । श्वदंष्ट्रायाश्च निःकाथे
नखणे च पृथक् पृथक् ॥ १७२ ॥
साधयित्वा घृतप्रस्थ पयश्चतुर्गुणे
पचेत् । शर्करामधुसंयुक्तं मिलित्वा
त्प्रयोजयन् ॥ १७३ ॥

जनावर, विचारीकन्द, उड्ड, कौंठ और गोम्बुत्त इनका एक २ ट्राण जलमें अलग २ काथ बनाकर उसमें १ प्रस्थ घृतको चौगुने दूधके साथ पकावे । फिर उसमें मिश्री और शहद मिलाकर सेवन करे । इसको सेवन करनेसे वन्व्या स्त्रीके गर्भ स्थित होता है ॥ १७२ ॥ १७३ ॥

वृद्धदारुकघृत ।

वृद्धदारुकमूलेन घृतं पक्वं पयोन्वि-
तम् । एतद्वृष्यतमं सर्पिः पुत्रकामः
पिवन्नरः ॥ १७४ ॥

विचारीकी जड़के कल्मके और दूधके साथ घृतको पकावे । पुत्रकी उत्पत्ति करनेवाला मनुष्य इस अत्यन्त घृततम घृतको पान करे ॥ १७४ ॥

अथ संजातगर्भके लक्षण ।

छिद्रिस्ते रुचिर्नित्यं ष्ठीविकारोम-
राजिका । अरुचिस्तनयोः काश्र्यं
ग्लानिराटोपवर्जितम् ॥ कुक्षेरक्षणोः
पक्ष्मलत्वं गर्भिणीस्फुटलक्षणम् ॥ १७५ ॥

वसनका होना, अम्लपदार्थों पर रुचिका उत्पन्न होना, निरंतर थूकना, रोमाचोंका खडा होना, भोजनमें अरुचि, स्तनोंमें कृष्णना, ग्लानि, आटोप, (पेटमें गुड २ शहदका होना) कौंख और आँखोंके पलकोंका भारी होना, ये सब गर्भवती स्त्रीके स्पष्ट लक्षण हैं ॥ १७५ ॥

नागोदरके लक्षण ।

यस्याः कुक्षौ भवेद्ग्लानिः पुनरा-
ध्मानमेव च । गर्भिण्या दृश्यते ना-
र्यास्तस्या नागोदरं विदुः ॥ १७६ ॥
व्याघ्रस्वेदवजिन्यास्तस्याः स्या-
द्दोहदं हितम् ॥ १७७ ॥

जिम गर्भवती स्त्रीकी कौंखमें ग्लानि होकर फिर अफारा हो जाता है, उसको नागोदर

कहते हैं । ऐसी गर्भिणीको मधुन और स्वेदसे वर्जित रख कर गर्भप्रद पदार्थ सेवन कराने चाहिये ॥ १७६ ॥ १७७ ॥

गर्भस्राव और गर्भपातके
अवधिपूर्वलक्षण ।

भयाभिघातात्तीक्ष्णोष्णपानाशननि-
षेवणात् । गर्भे पतति रक्तस्य सगलं
दर्शनं भवेत् ॥ १७८ ॥

भयसे, अभिघात (चोट आदिके लगने) से, तीक्ष्ण और उष्ण पदार्थोंको पान और भोजन करनेसे गर्भ-पात अथवा गर्भस्राव होता है । जब गर्भ स्रवता या गिरता है तब जलकी पीडा सहित रुविर निकलता है ॥ १७८ ॥

आचतुर्थात्ततो मासात्प्रस्रवेद्गर्भवि-
द्रवः । ततः स्थिरशरीरस्य पातः पञ्च-
मषष्ठयोः ॥ १७९ ॥

चौथे महीनेतक जो गर्भ रुविररूपसे स्रवता है, उसको गर्भस्राव कहते हैं और पांचवे महीनेमें अथवा छठे महीनेमें जब कि गर्भका शरीर स्थिर हो जाता है तब जो गर्भ गिरता है, उसको गर्भपात कहते हैं १७९

गर्भस्राव और पातकी चिकित्सा ।
सेकावगाहना लेपाः शस्यन्ते तत्र
शीतलाः । जीवनाद्यैः कृतक्षीः
पानश्चैव सशर्करम् ॥ १८० ॥

गर्भस्राव अथवा गर्भपातमें सम्पूर्ण शीतल पदार्थोंका सेवन, शीतल अवगाहन, और शीतल लेप ये सब प्रयोग करे तथा जीवनीयगणकी औषधियोंके द्वारा दूधको पकाकर मिश्री डालकर सेवन करे ॥ १८० ॥

अकालपातमें निदानपूर्वकदृष्टान्त ।

गर्भोऽभिघात-विषमाशनपीडनाद्यैः,
पक्वं द्रुमादिव फलं पतति क्षणेन ॥

जिसप्रकार वृक्षकी शाखामें लगा हुआ पका फल वृक्षसे तत्काल गिर पडता है, अथवा कच्चा फल भी अभिघात आदिसे गिर पडता है, उसीप्रकार गर्भ अभिघातसे, विषम भोजन करने या विषम आसनपर बैठने और दवाने आदिसे असमयमें गिरजाता है ॥

मूढगर्भके लक्षण ।

**मूढः करोति पवनः खलु मूढगर्भ
शूलञ्च योनिजठरादिषु मूत्रसंगम् ।**

अपने ही कारणसे कुपित होकर मूढ हुआ वायु गर्भाशयमें प्राप्त होकर गर्भको मूढ अर्थात् टेढ़ी गतिवाला कर देता है, उसको मूढगर्भ कहते हैं। उसके योगसे योनि और उदरादिकमें शूल तथा मूत्रका अवरोध होता है ॥

मूढगर्भकी आठप्रकारकी गति ।

भुग्नोऽनिलेन विगुणेन ततः स गर्भः
संख्यामतीत्य बहुधा समुपैति यो-
निम् ॥ १८१ ॥ द्वारं निरुध्य शिर-
सा जठरेण कश्चित् कश्चिच्छरीरप-
रिवर्तनकुञ्जदेहः । एकेन कश्चिदप-
रस्तु भुजद्वयेन तिर्यग्गतो भवति
कश्चिदवाङ्मुखोऽन्यः ॥ १८२ ॥ पार्श्व-
पवृत्तगतिरेति तथैव कश्चिदित्यष्टधा
गतारियं ह्यपरा चतुर्धा । सङ्कीलकः
प्रतिखुरः परिघोऽथ बीजस्तेपूर्ध्व-
बाहुचरणैः शिरसा च योनिम्
॥ १८३ ॥ सङ्गी च यो भवति कीलकव-
त्स कीलो दृश्यैः खुरैः प्रतिखुरः स
हि कायसङ्गी ॥ गच्छेद्भुजद्वयशि-
राः स च बीजकाख्यो योनौ स्थितः
सपरिघः परिघेण तुल्यः ॥ १८४ ॥

दृष्टवातसे गर्भ टेढ़ा होकर अनेकप्रकारसे यो-
निके मुखपर आकर अड़जाता है। वहा कोई गर्भ
योनिनिके गुप्तको गिरसे रोक लेता है, कोई गर्भ उद-
रसे योनिद्वारको रोक लेता है और कोई अपने शरी-
रको गोल घुमाकर कुण्डलेपनसे योनिद्वारको रोकता
है। कोई एक हाथसे, कोई दोना हाथसे योनिद्वारको
रोकता है। कोई तिरछा होकर योनिद्वारको रोकता
है। कोई नीचा मुख होकर योनिद्वारको रोकता है
और कोई पसलियोंको टेढ़ा करके योनिद्वारको
रोकता है। ऐसे आठ प्रकारसे विकृतगर्भकी गति
होती है। अब दूसरे प्रकारसे जा, गर्भकी चार
गति होती हैं, उनको कहते हैं। जैसे सकील,
प्रतिखुर, परिघ और बीज। इनसे जो गर्भ हाथ,

पॉवोको ऊपरको करके गिरसे योनिको कीलके
समान रोकदेता है उसको संकील कहते हैं। जो गर्भ
हाथ और पॉवोको योनिके बाहर निकाल देता है
और शरीर योनिके भीतर अटक जाता है उसको
प्रतिखुर कहते हैं। जो गर्भ दोनो हाथोंमें मस्तकको
रखकर योनिद्वारपर अटक जाता है उसको बीज
कहते हैं और जो द्वारके अर्गलके समान यानि-
द्वारपर अटक जाता है उसको परिघ मूढगर्भ कहते
हैं ॥ १८१-१८४ ॥

असाध्य मूढगर्भ और गर्भिणीके लक्षण ।

**अपविद्धशिरा या तु शीताङ्गी नि-
रपत्रपा । नीलोद्भूतशिरा हन्ति सा
गर्भं च स तां तथा ॥ १८५ ॥**

अब मूढगर्भ और गर्भिणीके असाध्यलक्षण
कहते हैं। जिस गर्भिणीका शिर नवगया हो, अर्थात्
ऊपरको न उठसके, शरीर शीतल होगया हो, लजा
नष्ट होगई हो और कोखमें नीलेरंगकी नसे दीखती
हो तो वह गर्भिणी गर्भको नष्ट करती है और गर्भ
गर्भिणीको नष्ट करदेता है ॥ १८५ ॥

मृतगर्भके लक्षण ।

**गर्भास्पन्दनमावीनां प्रणाशः श्या-
वपाण्डुता । भवेदुच्छ्वासपूतित्वं शूलश्चा-
न्तर्धृते शिशौ ॥ १८६ ॥**

गर्भमें बालकके मरजानेपर ये लक्षण होते हैं:-
गर्भ फडकता नहीं, प्रसवकी पीडा नहीं होती तथा
मूत्र, कफका आना आदि प्रसवके लक्षण नष्ट हो
जाते हैं, शरीरका रंग काला पीलासा हो जाता है,
ध्वासमें दुर्गंध आती है और पेटमें बालकके मर
जानेसे शूल सहित सूजन होती है ॥ १८६ ॥

गर्भमरण हेतु ।

**मानसागन्तुभिर्मातुरुपतापैः प्रपी-
डितः । गर्भो व्यापद्यते कुक्षौ व्याधि-
भिश्च निपीडितः ॥ १८७ ॥**

माताके शोक वियोगादि मानसिक दुःखों और
प्रहारादिके आगन्तुक दुःखोंसे दुःखित तथा रोगोंसे
पीडित होनेसे बालक गर्भमें ही मरजाता है ॥ १८७ ॥

असाध्य लक्षण ।

योनिस्त्वरणं सङ्गः कुक्षौ मारुत

एव च । हन्युः स्त्रियं मूढगर्भा यथोक्ता-
श्चाप्युपद्रवाः ॥ १८८ ॥

जिस गर्भिणीकी योनिमें योनिस्वरणरोग होजाय
अथवा योनि सकृच्चजाय, गर्भ योनिके द्वारपर अड-
जाय तथा वायु कोरामे भरजाय और वातके विकार
खाँसी, श्वानादि जिनमें उपद्रव हो ऐसे मूढगर्भ ग-
र्भिणीको नष्ट करदेते हैं ॥ १८८ ॥

गर्भस्य गतयश्चित्रा जायन्तेऽनिल-
कोपतः । तत्रानल्पमतिर्वैद्यो वर्त्तन्
यतिपूर्वकम् ॥ १८९ ॥

वातके प्रकारसे गर्भकी अनेकप्रकारकी गतियाँ
होती हैं । उनमें अत्यन्त बुद्धिमान् वैद्य सूक्ष्म बुद्धिके
साथ वर्त्ताव करे अर्थात् चिकित्सा करे ॥ १८९ ॥

मृतं गर्भं भिषक्प्राज्ञः छित्त्वा कर्षेत्प्र-
यत्नतः । धान्वन्तरिमतात्प्राज्ञः सा-
ध्यज्ञातश्च शल्यवित् ॥ १९० ॥

शल्यतंत्रको जाननेवाला अत्यन्त बुद्धिमान् वैद्य
मरेहुए गर्भको धन्वन्तरिके मतसे साध्य समझकर
शस्त्रसे यत्नपूर्वक काटकर निकाललेवे ॥ १९० ॥

अभिघातान्मृतायास्तु गर्भः प्रस्प-
न्दते यदि । जन्मकाले ततः शीघ्रं
पाटयित्वोद्धरोच्छिशुम् ॥ १९१ ॥

जो अभिघात आदि आगंतुककारणोंसे गर्भिणी
खी मरजाय और उसकी कोखमें गर्भ फडकता हो
तो जन्मके समय तत्काल गर्भको चीरकर बालकको
निकाल लेवे ॥ १९१ ॥

गर्भाशयं परिहरन्नथ गर्भिणीश्च यत्नं
करोति सहसा महदाशुकर्मा । वै-
द्यस्तु चेद्भवति शास्त्रगतिप्रवीणः
प्राप्नोति मित्रधनधान्ययशांसि लो-
के ॥ १९२ ॥

जो गर्भाशयको बचाकर और गर्भिणीकी रक्षा
करता हुआ, तथा शास्त्रगतिको जाननेवाला और
बड़ी जल्दी काम करनेवाला वैद्य शीघ्रतासे यत्न कर-
ता है वह ही संसारमें मित्र, धन, धान्य और यशका
भागी होता है ॥ १९२ ॥

गर्भस्य सन्ति गतयोऽष्टविधाः पुरो-
क्ताः, भ्राम्यन्ति वैगतिषु वातग-

तिस्वभावात् । अंसे त्रिके शिरसि
भूयासि तस्य सङ्गा, उत्तानकायाविनि-
कुञ्चितसक्थिदेशम् ॥ १९३ ॥ कट्यां
समुन्नमितवासासि सन्निपण्णस्त्रिगदे-
शसंस्थमथ पाणितले निजे च । मृच्छा-
ल्मलेर्वृतयुतैः परिमार्जयित्वा, गर्भं
समानयति रक्षति योषिताश्च ॥ १९४ ॥

वायुके विकृतगति होनेपर गर्भकी पूर्वोक्त आठ
प्रकारकी गतियाँ होती हैं । इसप्रकार वायु गतिस्व-
भावसे गर्भको अनेक प्रकारसे घुमाता है । इसमें वह
वायु गर्भके साथ होनेसे किसीको अश (कधो)के द्वारा
किसीको त्रिकस्थानके द्वारा और किसीको शिरके
द्वारा वारवार योनिके मुखपर लाकर अडा देता हो
उस समय बुद्धिमान् वैद्य उस गर्भवती स्त्रीके शरी-
रको उंचा करके और सक्थि (सॉथल)को सिकोडकर
सीधा जयन करादेवे तथा कमर और कंधोको ऊंचा
करके स्त्रिगदेश (कलो) को बखस लपेटकर वैद्य
अपने हाथोंसे मिट्टी और घृतसहित सेमलके गोदको
लेपकर गर्भवती स्त्रीकी योनिमें डालकर गर्भिणीकी
रक्षा करता हुआ यत्नपूर्वक गर्भको निकाल लेवे ॥
॥ १९३ ॥ ११४ ॥

सक्थ्यागतं सततमुन्नतमंसदेशं स्त्रि-
ग्धे समागतकपूर्वानिपीडितेन । स-
क्थिप्रसार्य परिधाय तथैव तिर्यग्-
त्क्षिप्य यत्पथगतं ननु योनिमार्गम् ॥
॥ १९५ ॥ पाशर्वागतस्य पारिवृत्य-
शिरो निपीड्य पूर्व समुन्नतशिरोप-
रिणयि योन्याम् । हस्तेन तं सपादि-
तं परिलभ्य शस्त्रैश्चित्त्वा हरेन्मृत-
कगर्भशरीरदेशान् ॥ १९६ ॥

जो गर्भ सक्थिके द्वारा आनकर योनिमार्गमें
अडजाय तो गर्भवतीके अंसदेशको ऊंचा करके तथा
घृतादिसे योनिको चिकना करके धीरे धीरे आयेहुए
गर्भको पीडित करके निकाल लेवे । और जो ति-
र्यक रीतसे योनिमार्गमें आनकर डडेके समान
अडजाय, उसमें एक सक्थिको फैलाकर और दूसरी
सक्थिको सिकोडकर गर्भको निकाल लेवे । जो

शिरको घुमाकर पार्श्व (पसली) के बलसे योनिमें आकर अडजाय उसके शिरको प्रथम योनिमें अच्छेप्रकारसे ऊँचा करके वीरसे गर्भको निकाललेवे। मरेहुए गर्भको हाथसे पकड़कर ग्रीत्रताकेसाथ उसको शस्त्रमें यत्नपूर्वक काटकर निकाल लेवे १९५॥१९६

यद्यदङ्गं हि गर्भस्य तत्तत्सज्जति स-
द्विषक् । सम्यग्भिनिर्हरेच्छित्त्वा र-
क्षेत्रारीश्च यत्नतः ॥ १९७ ॥

गर्भका जो २ अंग मूढ अर्थान् काटने योग्य हो उसी २ अंगको स्त्रीकी यत्नपूर्वक रक्षा करताहुआ अच्छेप्रकारसे काटकर निकाल लेवे ॥ १९७ ॥

सचेतनं तु शस्त्रेण न कथंचन दार-
येत । आत्मानं जननीश्चैव हन्यादा-
शु ह्यचेतनः ॥ १९८ ॥ नचोपेक्षेत
मृतं गर्भं मुहूर्त्तमपि पण्डितः । स
ह्याशु जननीं हन्ति निरुच्छ्वासं पशुं
यथा ॥ १९९ ॥

चेतनायुक्त गर्भको शस्त्रमें कदापि नहीं चीरे । चेतना रहित अर्थात् मृतकगर्भ अपने आपको और माताको ग्रीत्र ही मार डालता है इसकारण विद्वान वैद्यको मृतकगर्भका एक सुहृत् मात्र भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये क्योंकि मृतकगर्भ ग्रीत्र ही माताको मार देता है । जिसप्रकार श्वास बन्द किया हुआ पशु ग्रीत्र मरजाता है ॥ १९८ ॥ १९९ ॥

मण्डलाग्रेण कर्तव्यं छेद्यमन्तर्विजान-
ता । वृद्धिपत्रन्तु तीक्ष्णाग्रं न यो-
नाववचारयेत ॥ २०० ॥

गर्भाग्यको जाननेवाला वैद्य मण्डलाग्रनामक शस्त्रसे मूढगर्भको चीरे, किंतु वृद्धिपत्र और तीक्ष्णाग्रनामक शस्त्रको कदापि योनिमें व्यवहार नहीं करे ॥ २०० ॥

प्रतिमासगर्भिणीकी चिकित्सा ।
प्रथमाद्दृशं यावन्मासं गर्भच्युतौ
रुजि । जानीयात्क्रमसञ्जातयोगाने-
तान्भिषग्वरः ॥ २०१ ॥

पहले महीनेसे लेकर बारह महीनेपर्यन्त जो गर्भ-
स्राव या पीडा आदि होती है उसकी अनेक योगोंके
द्वारा क्रमसे चिकित्सा कहते हैं ॥ २०१ ॥

मधुकं शाकबीजन्तु पयस्यासुरदारु-
च । अश्मन्तकः कृष्णतिलास्ताम्र-
वल्ली शतावरी ॥ २०२ ॥

पहिले महीनेमें यदि गर्भस्राव या गर्भगुल हो तो मुलैठी, सागोनके बीज, काकोली और देवदारु इनका एक २ तोला कल्क दूधके साथ पान करे । दूसरे महीनेमें अश्मन्तक, (इसको पश्चिममें आपटा और कहीं कहीं आम्ललौना या अम्लनानिया अथवा दीपक वृक्षभी कहते हैं) इसके पत्त कचनारके समान होते हैं । काले तिल, मजीठ और शतावर इनका एक तोला कल्क लेकर दूधके साथ सेवन करे ॥ २०२ ॥

वृक्षादनीपयस्या च लता सोत्पल-
शारिवा । अनन्ताशारिवारास्त्रा
पद्माऽथ मधुयाष्टिका ॥ वृहतीद्वयका-
श्मर्यक्षीरी शुङ्गास्त्वचोघृतम् । पृथ-
क्पर्णी बलाशिशुश्चदंष्ट्रामधुयाष्टिका ।
शृङ्गाटकं विसं द्राक्षा कशेरुन्युकं
सिता ॥ २०३ ॥ सप्तैतान्पयसा यो-
गानर्द्धश्लोकसमापनान् । क्रमात्सत-
सु मासेषु गर्भं भ्रवति योजयेत् २०४ ॥

तीसरे महीनेमें वटा, क्षीरकाकोली, फूलप्रियंगू, कमल और अनन्तमूल इनका दूधमें एक तोला कल्क बनाकर पान करे। चौथे महीनेमें अनन्तमूल, शारिवा, गायसन, पद्मास्र और मुलैठी इनका कल्क बनाकर दूधके साथ सेवन करे । पांचवे महीनेमें दोनो कटेरी कुम्भेर एव वड आदि क्षीरवृक्षोंके अंकुर, और छाल इनको पीसकर घृत और दूधमें मिलाकर सेवन करावे । छठे महीनेमें पृश्निपर्णी, खिरैटी, सहिजना, गोखरु और मुलैठी इनका कल्क बनाकर दूधमें मिलाकर सेवन करे । और सातवे महीनेमें सिघाडे, भसीडेकी जड़, दाख, कशेरु, मुलैठी और मिथी इनका कल्क बनाकर दूधके साथ सेवन करे। गर्भस्राव होता हो तो इन आधे २ श्लोकमें कहे हुए सातों योगोंको सात महीनोंमें क्रम २ से दूधके साथ सेवन करावे ॥ २०३ ॥ २०४ ॥

कापित्यविल्ववृहतीपटोलधुनिदग्धि-
काः । मूलानि क्षीरसिद्धानि पाय-
येद्विषगष्टमे ॥ २०५ ॥

आठवें महीनेमें कैथ, बेलगिरी, बड़ी कटेरी, पटोलपात, डख और कटेरी इनकी जड़ोंके काथमें दूधको आँटाकर पान करावे ॥ २०५ ॥

संप्राप्ते चाष्टमे मासे मैथुनं परिवर्जयेत् । यदि गच्छति दुर्मधाः काम-मोहादचेतनात् ॥ २०६ ॥ विपद्यते तदा गर्भं पतते नात्र संशयः । अन्धमूकादिवधिरो जायते कुब्जमेव च ॥ २०७ ॥

आठवें महीनेसे मैथुन करना सर्वथा त्याग कर देना चाहिये । यदि कोई दुष्टबुद्धि कामके वशीभूत होकर आठवें महीनेमें स्त्रीके पास जाता है तां गर्भ निःसन्देह विकृत या पतित होजाता है । उसके विकृत होनेसे अन्धा, बहरा, गूंगा, कुबडा आदि अनेकप्रकारकी विकृत सन्तान उत्पन्न होती है ॥ २०६ ॥ २०७ ॥

नवमे मधुकानन्तापयस्याशारिवाः पिबेत् । पयस्तु दशमे शुञ्चा शृत-शीतं प्रशस्यते ॥ २०८ ॥ सक्षीरा वा हिता शुण्ठी मधुकं देवदारु च ॥ २०९ ॥

नौवें महीनेमें मुलैठी, अनन्तमूल, क्षीरकाकोली और शारिवा इनको दूधके साथ पान करे । दशवें महीनेमें सोठको दूधमें आँटाकर फिर शीतल करके पान करे । अथवा सोठ, मुलैठी और देवदारु इनको दूधमें आँटाकर पीवे ॥ २०८ ॥ २०९ ॥

क्षीरिकामुत्पलं दुग्धं समङ्गामूलकं शिवाम् । पिबेदेकादशे मासि गर्भिणी शूलशान्तये ॥ २१० ॥

ग्यारहवें महीनेमें क्षीरकाकोली, कमल, मजीठकी जड़ और हर्ष इनको एकत्र करके दूधके साथ पान करे तो गर्भिणीका शूल शान्त होता है ॥ २१० ॥

सिताविदारिकाकोली क्षीरे चैव मृणालिका । गर्भिणी द्वादशे मासि पिबेच्छूलघ्नमौषधम् ॥ एवमाप्यायते गर्भः स्त्रियो रुक् चोपशाम्यति ॥ २११ ॥

बारहवें महीनेमें गर्भिणी स्त्री मिश्री, विदारिकन्द, काकोली और कमलकी नाल इनको एकत्र दूधके साथ पीसकर पान करे । यह औषध शूलनाशक है । इसप्रकार चिकित्स्य करनेपर स्वप्ताहुआ या पतित होताहुआ गर्भ स्थिर होजाता है और स्त्रीका शूल भी नष्ट होजाता है ॥ २११ ॥

कुशकाशोरुवृकानां मूलैर्गोधुसुकस्य च । शृतं दुग्धं सितायुक्तं गर्भिण्याः शूलनुत्परम् ॥ २१२ ॥

कुशा, कास, अण्ड आर गांखुरु, इनकी जड़के द्वारा दूधको आँटाकर मिश्री डाल कर पान करनेसे गर्भिणीका शूल नष्ट होता है ॥ २१२ ॥

कशेरुशृङ्गाटकजीवनियैः पद्मोत्प-लैरण्डशतावरीभिः । सिद्धं पयः श-र्करया विमिश्रं संस्थापयेद्गर्भमुदीर्णं शूलम् ॥ २१३ ॥

कशेरु, सिंघाडे, जीवनीयगणकी औषधियाँ, कमल, कमोदिनी, अण्ड और अतावर इनके काथके साथ दूधको आँटाकर मिश्री डाल कर पान करनेसे गर्भ स्थित होता है और घोर शूलकी पीडा शान्त होती है ॥ २१३ ॥

कशेरुशृङ्गाटकपद्मकोत्पलं समुद्रप-र्णिमधुकं सशर्करम् । सशूलगर्भस्यु-तिपीडितांगना पयोविमिश्रं पय-सान्नमुक्पिबेत् ॥ २१४ ॥

गर्भशूल और गर्भस्त्रावसे पीडित स्त्री कशेरु, सिंघाडे, पद्मास्र, कमल, मुगवन और मुलैठी इन सबके चूर्णको मिश्री मिलाकर दूधके साथ पान करे तो गर्भशूल और गर्भस्त्राव आदि समस्त विकार दूर होते हैं । किंतु इस औषध पर दूधके साथ मात खावे ॥ २१४ ॥

व्यवस्थिते च गर्भे गव्येनोदुम्बरश-लाटुसिद्धेन पयसा भोजयेद्गर्भं पति-ते तीक्ष्णं मद्यं पेयं तस्योपद्रवशा-न्त्यै । त्यागोपवशाद्वा न पिबति मद्यं या तु सा चकोलसाधितां पेयामेवा-श्नातु अतीति स्नेहलवणवर्ज्याभि-

यवागूभिरुद्दालकादीनां पाचनीयो-
पसंस्कृताभिरुपक्रमेत । यावन्तो
मासा गर्भस्य तावन्त्यहानीति ।
इति गर्भशूलम् ।

गर्भके स्थिर होनेपर गायके दूधमे कच्चे गूलरोंको पकाकर उस दूधको पान करे । और यदि गर्भ पतित होजाय तो उसके उपद्रवोंको शांत करनेके लिये तीक्ष्ण मदिरादि पान करे । और जिन स्त्रियोंके मद्य-पान आदिका त्याग हो वे वरक द्वारा सिद्ध की हुई अथवा पंचकोलके द्वारा सिद्ध कीहुई पेया पान करे । और गर्भ पतित होनेके पश्चात् धी और नमकरहित यवागू या उद्दालक आदिका पकाकर और अच्छे प्रकारसे संस्कार करके जितने महानोका गर्भ गिरा हो उतने दिनोतक पिलावे ।

गर्भिणीके ज्वरकी चिकित्सा ।

मधुकचन्दनोशीरशारिवापद्मयष्टिकैः ।
शर्करामधुसंयुक्तः कषायो गर्भिणी
ज्वरे ॥ २१५ ॥

गर्भवती स्त्रीको ज्वर होनेपर मुलेठी, चन्दन, खस, शारिवा और पद्माख इनके द्वारा सिद्ध किया हुआ काथ मिश्री और गहद डालकर पान करना चाहिए इससे ज्वर नष्ट होता है ॥ २१५ ॥

चन्दनं शर्करालोध-मृद्धिकाशर्करा-
न्वितम् । काथं कृत्वा प्रदातव्यं
गर्भिणीज्वरशान्तये ॥ २१६ ॥

गर्भवती स्त्रीके ज्वरको शमन करनेके लिए चन्दन, मिश्री, लोध और दाख इनका काथ बनाकर मिश्री मिलाकर पान कराना चाहिये ॥ २१६ ॥

पिवेद्विश्वमजाक्षीरं नाशयेद्विषम-
ज्वरम् ॥ २१७ ॥

सोठको बकराके दूधमे औटाकर पान करनेसे विषमज्वर नष्ट होजाता है ॥ २१७ ॥

आम्रजंतूत्वचं काथ्य लेहयेह्लाजस-
क्तभिः । अनेन लीढमात्रेण गर्भिणी
ग्रहणीं जयेत् ॥ २१८ ॥

आम और जामुनकी छालका काथ बनाकर उसमें खीलोंके सक्कोंको मिलाकर चाटनेसे गर्भिणीका सग्रहणीरोग नष्ट होता है ॥ २१८ ॥

द्विवेराऽरलुरक्तचन्दनबला-धान्या-
कवत्सादनी मुस्तोशीरयवासपर्पट-
विषाक्काथं पिवेद्वर्भिणी । नानावर्ण-
रुजातिसारकगदे रक्तसुतो वा ज्वरे
योगोऽयं मुनिभिः पुरा निगदितः
सूयामये सत्तमः ॥ २१९ ॥

सुगन्धवाला, सोनापाठा, लालचन्दन, खिरैटी, धनियां, गिलोय, नागरमोथा, खस, जवासा, पित्त-पापडा और अतीस इनका काथ बनाकर गर्भिणी-स्त्रीको पान करना चाहिये । इससे गर्भिणी स्त्रियोंका अनेकप्रकारकी पीडासहित अतीसार, रक्तस्राव और ज्वर यह सब दूर होते है । यह योग पूर्वकालमें प्राचीन ऋषियोने कहा है । यह सूतिकी रोगमें अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ २१९ ॥

गोधामांसं प्रयत्नेन गर्भिणीश्च प्रदा
पयेत् । वातपित्तकफोद्भ्रिता ग्रहो-
त्था येऽप्युपद्रवाः ॥ गर्भिण्युपद्रवान्स-
र्वांगोधामांसं विनाशयेत् ॥ २२० ॥

गोधामास (गोयका मास) गर्भवतीस्त्रीको यत्न-पूर्वक सेवन करावे । वात, पित्त और कफसे उत्पन्न हुए, एवं ग्रहोसे उत्पन्न हुए तथा अन्यान्य सर्व प्रकारके गर्भिणीके उपद्रवोंको गोधामांस नष्ट करदेता है ॥ २२० ॥

समधुच्छागदुग्धेन कुलालकरमृत्तिका।
अवश्यं स्थापयेद्गर्भं बालिनं पानयो-
गतः ॥ २२१ ॥

गहद और बकराके दूधमे कुम्हारके हाथकी मट्टीको मिलाकर सेवन करनेसे गर्भ अवश्य स्थापन होता है ॥ २२१ ॥

पारावतशकृत्पीतं शालितण्डुलवा-
रिणा । गर्भपातान्तरोत्थे च गर्भस्रा-
वानिवादनम् ॥ २२२ ॥

परेवा (क्यूतर) की विष्टाको शालिचावलोकं जलके साथ पान करनेमें गर्भपात होनेपर उत्पन्न हुए गर्भन्त्राव आदि उपद्रव दूर होते हैं ॥ २२२ ॥

गर्भिणीप्रसवविलम्बकी चिकित्सा ।

जीवति गर्भे सूतिका गर्भनिर्हरणे प्रयतेत । निर्हर्तुमशक्ये च्यवना-
न्मन्त्रानुपशृणुयात् । तान्वक्ष्यामः ।

जीवितगर्भ जो नहीं प्रसव होता हां तो गर्भिणी उसको प्रसवकरनेका यत्न करे। और जो निकालनेको असमर्थ हां तो नीचे लिखे च्यवनमंत्रोंको श्रवण करे। उन च्यवनमंत्रोंको कहते हैं ।

‘इहामृतञ्च सोमञ्च चित्रभानुञ्च भा-
मिनि । उच्चैःश्रवाञ्च तुरगो मंदिरे
निवसन्तु ते ॥ २२३ ॥ इदममृतमपां
समुद्धृतं वै तव लघुगर्भमिमं विमुञ्च-
तु स्त्री । तदनलपवनाकंवासवास्ते सह
लवणाम्बुधरैर्दिशन्तु शान्तिम् २२४॥
मुक्ताः पशोर्विपाशाश्च मुक्ताः सूर्य्येण
रश्मयः । मुक्तः सर्वभयाद्गर्भ एहोहि
माचिरं स्वाहा’ ॥ २२५ ॥ जलं च्य-
वनमन्त्रेण सप्तवाराभिमन्त्रितम् ।
पीत्वा प्रसूयते नारी दृष्ट्वा चोभय-
त्रिंशकम् ॥ २२६ ॥

नाडी १६, ऋतुः ६,
वसुभिः ८, सहपक्ष २,
दिग १०, द्वादश १८,
भिरेव च । अर्क १२,
भुवन १४, वेद ४, स-

१६	२	१२
६	१०	१४
८	१८	४

हितैरुभयत्रिंशकमाश्चर्य्यम् ॥

‘इहामृतञ्च सोमञ्च... स्वाहा’ इस न्य-
वनमन्त्रसे जलको सातवार अभिमन्त्रित करके स्त्रीको
पिलावे । और नीचे लिखे ३० तीसके यन्त्रका दि-
खावे तो स्त्रीके सुख पूर्वक प्रसव होता है २२३-२२६

	३०	३०	३०	
०	१६	२	१२	०
०	६	१०	१४	०
०	८	१८	४	०
	३०	३०	३०	

इस यंत्रको लिखकर गर्भिणीको दिखानेसे सुख-
पूर्वक प्रसव होता है ॥

क्षितिर्जलं विद्यतेजो वायुर्विष्णुः
प्रजापतिः । ते गर्भं पातु नैरुज्यं
वैशल्यञ्च दधत्स्यपि ॥ २२७ ॥ प्रसू-
यत्वमविक्लिष्टमविक्लिष्टे शुभानने ।
कार्तिकेयद्युतिं पुत्रं कार्तिकेया-
भिरक्षितम् ॥ २२८ ॥

‘क्षितिर्जलं..... रक्षितम्’ ॥ २२७॥ २२८॥
प्रसवकाले गर्भिण्याः कर्ण एतत्सप्त-
वारान् जप्तव्यम् ।

इस मंत्रको प्रसवके समय गर्भिणीस्त्रीके कानमें
सातवार सुनायेसे सुखपूर्वक प्रसव होता है ॥

पुरुषकशिफालेपः स्थिरामूलकृतौ-
ऽपि वा । नाभिवस्तिभगे लेपः सुखं
नारी प्रसूयते ॥ २२९ ॥

फालसेकी जड और शालपर्णीकी जड इनको
एकत्र पीसकर स्त्रीकी नाभि, वरित और भगपर लेप
करनेसे स्त्री सुखपूर्वक प्रसव करती है ॥ २२९ ॥

तुषाम्बुपरिपिष्टेन कन्देन परिलेपये-
त् । लाङ्गल्याश्चरणौ सूते क्षिप्रमाप-
न्नगर्भिणी ॥ २३० ॥

कलिहारीके कन्दको कांजीमे पीसकर गर्भिणीके
पात्रोपर लेप करनेसे सुखपूर्वक प्रसव होता है २३०

सितया चर्वणं कृत्वा कोकिलाक्ष
स्य मूलकम् । तत्कर्णपूरणेनाशु सु-
खं नारी प्रसूयते ॥ २३१ ॥

तालमखानेकी जडको मिर्शिके साथ चावकर उसका रस कानमें डालनेसे स्त्री सुखपूर्वक प्रसव करती है ॥ २३१ ॥

श्यामासुदर्शनाभ्यान्तु लताभ्यां
परिकल्पितम् । क्षिपेत्कुडवकं मूर्ध्नि
यावत्पादतलं व्रजेत ॥ उद्धृतगात्र-
पीडायाः सुखप्रसवकारकम् ॥ २३२ ॥

काली निसोत और मुद्गनलताको एक कुडव परिमाण लेकर पीसकरके शिरपर धारण करे । जत्र-तक कि, वह पांशोतक टपककर आवे तवतक वारण करे रहे । इससे प्रसवकी पीडा शांत होनी है और सुखपूर्वक प्रसव होता है ॥ २३२ ॥

अपामार्गशिखां योनिमध्ये निक्षि-
प्य धार्यते । सुखं प्रसूयते नारी
भेषजस्यास्य योगतः ॥ २३३ ॥

चिरचिटेकी जडको उखाड कर योनिमें धारण करनेसे सुखपूर्वक प्रसव होता है ॥ २३३ ॥

पाठामूलं तु तद्वत्स्यादाटरूपकमू-
लकम् । लेपनाद्वारणाद्वापि सुखप्र-
सवकारकम् ॥ २३४ ॥

पाठकी जडका अथवा अड्डसेकी जडको पीसकर योनिपर लेप करने अथवा योनिमें धारण करनेसे स्त्रीके सुखपूर्वक प्रसव होता है ॥ २३४ ॥

मूलञ्च शालिपर्ण्यास्तु पिष्टं वा
तंडुलाम्बुना । नाभिवस्तिभगालेपा-
त्सुखं नारी प्रसूयते ॥ २३५ ॥

शालिपर्णीकी जडको चावलोके जलमें पीसकर नाभि, वस्ति और भगके ऊपर लेप करनेसे सुख-पूर्वक स्त्री प्रसवती होती है ॥ २३५ ॥

सितपिकलोचनवर्णं चर्वणपूर्वश्च क-
र्णपूरणतः । अपि विषमगर्भपीडित-
वनिता सुखं सूतिमभितनुते ॥ २३६ ॥

सफेद कोकिलाक्ष (तालमखाना) की जडको चावकर कानमें डालनेसे विषमगर्भकी पीडा दूर होकर सुखपूर्वक प्रसव होता है ॥ २३६ ॥

पिष्ट्वा पाठापत्रं नारीक्षिरेण या पि-
वेदवला । सा गर्भमृद्वजनितव्यथया
प्रविमुच्यते झटिति ॥ २३७ ॥

पाठके पत्तोको स्त्रीके दूधमें पीसकर पान करनेसे मृद्वगर्भकी व्यथासे स्त्री शीघ्र ही निवृत्त होजाती है ॥ २३७ ॥

भातुलुङ्गस्य मूलानि मधुकं मधुसं-
युतम् । घृतेन सह पातव्यं सुखं
नारी प्रसूयते ॥ २३८ ॥

विजौरेकी जड और मुलैठीको एकत्र पीसकर गहद और चींभ मिलाकर सेवन करानेसे सुखपूर्वक प्रसव होता है ॥ २३८ ॥

इक्षोरुत्तरदिङ्मूलं स्त्रीप्रमाणेन त-
न्तुना । बध्वा कट्याश्च नियतं सुखं
नारी प्रसूयते ॥ २३९ ॥

उत्तर दिशामे उत्पन्न हुई ईखकी जडको उखाड-कर स्त्रीके बराबर डोरेमें बाँधकर कमरमें धारण कर-नेसे सुखपूर्वक प्रसव होता है ॥ २३९ ॥

तालस्य चोत्तरं मूलं स्त्रीप्रमाणेन
तन्तुना । बद्धा कट्याश्च नियतं सुखं
नारी प्रसूयते ॥ २४० ॥

उत्तरदिशामे उत्पन्न हुए ताडके वृक्षकी जडको स्त्रीके बराबर लम्बे डोरेसे कमरमें बाँधनेसे स्त्रीके सुखपूर्वक प्रसव होता है ॥ २४० ॥

पञ्चाङ्गं हास्तिशौण्डं लोधपत्राभ्यां
विमिश्रितं कृत्वा । सर्पिषि विपाच्य
पिष्टं भक्षितमात्रेण सूतिवनितायाः ॥
गङ्गाप्रवाहत्तुल्यं रक्तं वै स्वास्थ्यमति
कुरुते ॥ २४१ ॥

हस्तिशुडीवूटीका पचाग और लोधके पत्ते इनका कल्क बनाकर इस कल्कके द्वारा घृतका पकावे । इस घृतको सेवन करनेसे गंगाके प्रवाहके समान वेगवाला स्त्रियोका बहताहुआ रुधिर भी रुकजाता है और अतीव स्वास्थ्य उत्पन्न होता है ॥ २४१ ॥

वेगाघाताद्वायुर्गोनिं संधार्य वेदनां
कुरुते । तत्र विधेयः कल्कः शतपु-
ष्पायाः सलिलेन लेपेन ॥ २४२ ॥

वेगके अभिधानसे वायु योनिमें स्थित होकर पीडा करता है उससमय सौंफ या सौंयेके कल्कको जलमें पीसकर योनिमें लेप करे ॥ २४२ ॥

करङ्गीभूतगोमूद्द्रसृतिकाभवनोपरि ।
स्थापितस्तत्क्षणात्रार्याः सुखं प्रस-
वकारकः ॥ २४३ ॥

गायके मस्तककी हड्डीको प्रमूताके धरके ऊपर सरनसे खी तत्काल सुखपूर्वक प्रसव होती है २४३

गोशिरः करंकीभूतमस्थिमात्रमेव
स्थितम् ।

केवल हड्डीमात्र अवशिष्ट मृतगायके शिरको करंके कहते हैं ॥

कटुतुम्ब्यहिनिर्मोककृतवेधनसर्षपैः ।
कटुतैलान्वितैर्योनेर्धूमः पातयतेऽप-
राम ॥ २४४ ॥

कडवीतोम्बी, सांपकी कैचली, कडवी तोरइ और सरतों इनको कडवे तेलमें मिलाकर इनकी धूनी योनिमें देनेसे अपरा अर्थात् जेर गिरजाती है ॥ २४४ ॥

भूर्जगुग्गुलुधूपेन श्रोण्याश्वास्याः प्र-
धूपनम् । अपरापातनं शस्तं सद्यः
शूलनिवारणम् ॥ २४५ ॥

भोजपत्र और गुगलकी प्रसूता खीकी कमरको धूनी देनेसे जेर गिरजाती है और तत्काल पीडा नष्ट होजाती है ॥ २४५ ॥

कचवेष्टितयांगुल्या वृष्टे कण्ठे सुखं
पतत्यपरा । मूलेन लाङ्गलक्याः सं-
ल्लिते पाणिपादे वा ॥ २४६ ॥

बालोको अगुलीमें बाँधकर उससे कण्ठ या मुखको घिसनेसे जेर सहजमे गिरजाती है । अथवा कलिहारीकी जडको पीसकर हाथ पावोंसे लेप करनेसे जेर गिरजाती है ॥ २४६ ॥

कुष्ठं सशालिमूलञ्च सगोमूत्रञ्च पाय-
येत । अपरा पतिता क्षिप्रं छिन्नं पक्षं
वकं यथा ॥ २४७ ॥

कूठ, शालिधानकी जड और गोमूत्र इनको एकत्र मिलाकर पान करानेसे जेर आदि इस प्रकार शीघ्र गिरजाते हैं, जैसे बगलेके पंख शीघ्र गिरजाते हैं ॥ २४७ ॥

हिंशुपिप्पलिपाटल्यो भाद्र्मीमेदामहौ-
षधम् । रास्त्रामतिविषाचव्यमेभिर्दो-
षः प्रसिध्यति । योनिश्च मृद्धी भवति
योनिशूलञ्च शास्यति ॥ २४८ ॥

हींग, पीपल, दोतो प्रकारकी पाटल, भारंगी, मेदा, सोठ, रायसन, अतीस और चव्य इन सब औषधियोंको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे सम्पूर्ण योनिगतदोष दूर होते हैं । योनि मुटु होती है और योनिशूल शान्त होता है ॥ २४८ ॥

विल्वमार्कवजं मूलं कल्कं मद्येन पा-
ययेत् । तेन योनिगतं शूलमाशु शा-
स्यति योषिताम् ॥ २४९ ॥

बेल और भोंगरेकी जडका कल्क बनाकर मदिराके साथ पान करानेसे स्त्रियोंका योनिगतशूल तत्काल शान्त होजाता है ॥ २४९ ॥

शालिनूलाक्षमात्रन्तु यूत्रेणाम्लेन वा
युनम् । उपकुञ्चिकां पिप्पलीं च मदिरां
लाभतः पिबेत् ॥ सौर्वर्चलेन संयुक्तं
योनिशूलनिवारणम् ॥ २५० ॥

शालिधानोंकी जडको एक तोला परिमाण लेकर गोमूत्रके साथ अथवा काँजीके साथ सेवन करनेसे अथवा इलायची और पीपलको पीसकर मदिराके साथ कालानमक डालकर पान करनेसे योनिशूल नष्ट होता है ॥ २५० ॥

अथापतन्तीमपरां पातयेत्पूर्ववद्भि-
षक् । हस्तेनापहरेद्वापि पार्श्वार्भ्यां
परिपीडयेत् वा ॥ २५१ ॥ धुनुयाद्वा
मुहुर्नारीं पीडयेद्वा सपिण्डिकाम् ।
तैलाक्तयोनेरेवं तां पातयेन्मतिमा-
न्भिषक् ॥ २५२ ॥ प्रवृत्तिकुशला यो-
षिद्विधिमेनं करोति सा । एवं निर्ह-
तशल्यां तां सिध्देषुण्येन वारिणा
॥ २५३ ॥ ततोऽभ्यक्तशरीराया यौ-

नौ स्नेहं निधापयेत् । एवं मृद्धी भवे-
द्योनिस्तच्छूलं चोपशाम्यति ॥ २५४ ॥

जो जरायु (जेर) नहीं गिरे तो उसको वद्य प्रवोक्तविधियोंसे पतित करे अथवा प्रसूतास्त्रीके दोनों पार्श्व प्रदेशों (पसली) को दवाकर योनिमें हाथ डालकर निकाल लेवे । अथवा किंचित् समयके लिये उसको ऋग्पत्र कर और उसकी पिंडलिओको पीडित करके योनिमें तेल लगाकर निकाल देवे । यह कर्म प्रसूतकर्ममें कुशल जनयित्री (दाई) को करना चाहिए इसप्रकार उसको शल्यरहित करके पश्चात् प्रसूतास्त्रीके शरीरको गरमजलसे सींचे और मालिश करे फिर उसकी योनिमें तेल लगाकर उम स्त्रीको विश्राम करावे । इस प्रकार करनेसे योनि मृदु हानी होती है और योनिशूल शांत होता है ॥ २५१-२५४ ॥

अथ मक्कलशूलका निदान ।

वायुः प्रकुपितः कुप्यात्संरुध्य रु-
धिरं स्तुतम् । सूताया हृच्छिरोवस्ति-
शूलमक्कलसंज्ञितम् ॥ २५५ ॥

प्रसवके समय प्रसूतास्त्रीके योनिमें पवनके लग-
नेसे वायु कुपित होकर गिरते हुए रुधिरको रोक देता
है इससे उसके हृदय, गिर और वस्तिस्थानमें जो
शूल होता है, उसको मक्कल शूल कहते हैं ॥ २५५ ॥

पृथिव्यां पतिते गर्भे योनौ पीडन-
मिष्यते । अप्रवेशो यथा वायोस्त-
स्य संरक्षणक्रिया ॥ हृद्वस्तिशूल-
माध्मानं प्रविष्टे तत्र जायते ॥ २५६ ॥

प्रसवके समय बालकके भूमिमें गिरते ही तत्काल
योनिको दवा देवे, जिससे कि प्रसूताकी योनिमें वायुका
प्रवेश न होजाय ऐसी रक्षा करे । क्योंकि, उससमय
योनिमें वायुके प्रवेश होनेसे हृदय और वस्तिमें शूल
तथा आध्मान इत्यादि अनेक उपद्रव होजाते हैं ॥ २५६ ॥

मक्कलशूलकी चिकित्सा ।

संचूर्णितयवक्षारं पिबेत्कोष्णेन वा-
रिणा । सर्पिषा वा पिबेन्नारी मक्क-
लस्य निवृत्तये ॥ २५७ ॥

जवाखारके चूर्णको गरम जलके साथ पान कर-
नेमें अथवा बीके साथ पान करनेसे मक्कलशूल शान्त
होता है ॥ २५७ ॥

त्रिकटुचातुर्जानककुस्तुम्बकचूर्णसंयु-
क्तम् । खादेद्दुर्दं पुराणं नित्यं नारी
मक्कलदलनाय ॥ २५८ ॥

सोठ, मिरच, पीपल, दालचीनी, इलायची, तेज-
पात, नागकेशर और धनियाँ इन सबको एकत्र चूर्ण
करके पुराने गुडमें मिलाकर नित्य सेवन करनेसे
मक्कलशूल नष्ट होता है ॥ २५८ ॥

मातुलुङ्गस्य मूलन्तु मल्लिकामूलमेव
च । विल्वमुस्तभिदं लेपं शिरोरोग-
विनाशनम् ॥ २५९ ॥

विजौरैनीवृकी जड़, मोतियाकी जड़, बेलगिरी
और नागरमोथा इन सबको एकत्र पीसकर लेप क-
रनेसे शिरोरोग नष्ट होता है ॥ २५९ ॥

त्र्यूषणं पिप्पलीमूलं दारुचव्यं सचि-
त्रकम् । रजन्यौ हपुषाजाजीसक्षार-
लवणत्रयम् ॥ कल्कमुष्णांबुना पी-
त्वा सुखेनाशु विरिच्यते ॥ २६० ॥

सोठ, मिरच, पीपल, पीपलामूल, देवदारु, चव्य
चीता, हलदी, दारुहलदी, हाऊवेर, जीरा, जवाखार
सैवानमक, कालानमक और कचिचानमक इन सब
का कल्क बनाकर गरम जलके साथ पान करनेमें
सुखपूर्वक विरेचन होजाता है ॥ २६० ॥

अथ सूतिकारोगके लक्षण ।

प्रलापो वेपथुर्यस्याः सूतिका सा
उदाहता ॥ २६१ ॥ अङ्गमर्दो ज्वरः
कम्पः पिपासा गुरुगात्रता । शोथः
शूलातिसारौ च सूतिकारोगलक्ष-
णम् ॥ २६२ ॥

जिसके प्रलाप (वृथा बकवाद) और कम्प हो
उसको सूतिकारोग कहते हैं । तथा अगोंका टूटना,
ज्वर, कम्प, प्यास, शरीरमें भारीपन, सूजन, शूल
और अतिसार ये सब सूतिकारोगके लक्षण हैं ॥
॥ २६१ ॥ २६२ ॥

सूतिकारोगका निदान ।

मिथ्योपाचारात्संक्लेशाद्विषमाजीर्ण-
भोजनात् । सूतिकायास्तु जायन्ते
ये रोगास्ते सुदारुणाः ॥ २६३ ॥

प्रसूतास्त्रीके सिध्या उपचार करनेसे अथवा दोप-
जनक आहार विहार करनेसे, या क्लेश करनेसे, विप-
यभोजन और अजीर्णमें भोजन करनेसे दारुण प्रसू-
तिरोग उत्पन्न होते हैं ॥ २६३ ॥

ज्वरातिसारशोफाश्च शूलानाहवल-
क्षयाः । तन्द्रारुचिप्रसेकाद्याः कफ-
वातामयोद्भवाः ॥ २६४ ॥ कृच्छ्र-
साध्या हि ते रोगाः क्षीणमांसव-
लाश्रिताः । ते सर्वे सूतिका नाम्ना
रोगास्ते चाप्युपद्रवाः ॥ २६५ ॥

इस प्रसूतिरोगमें ज्वर, अतिसार, सूजन, शूल,
अफारा, बलका नाश, तन्द्रा, अरुचि, मुखसे पानी-
का गिरना, कफ और वातसे उत्पन्न होनेवाले रोग
इत्यादि अनेक रोग होते हैं ये सब रोग मांस और
बलकी क्षीणतासे होते हैं । ये सब सूतिकानामसे
प्रसिद्ध हैं । इनमें एक कोई रोग होता है और
वाक्यके उपद्रवरूप होते हैं । ये सब कष्ट साध्य
हैं ॥ २६४ ॥ २६५ ॥

अथ सूतिकारोगकी चिकित्सा ।

दशमूलकृतं तोयं कोष्णश्च हविषा-
न्वितम् । पथ्याशिन्या द्रुतं नार्घ्या
पीतं सूतीरुजं जयेत् ॥ २६६ ॥

दशमूलके काथको मन्दोष्ण करके उसमें घी डाल
कर पीवे और पथ्यसे रहे तो जीव ही प्रसूता स्त्री
प्रसूति रोगसे मुक्त होजाती है ॥ २६६ ॥

कृतवोपवासभवला सुतजन्मघस्त्रे, प्रा-
तर्निपीय कृमिशत्रुभवं हि मूलम् ।
वासाम्भसा किमथवा हविषापि
पीत्वा, सूती जयेत्षडिति रोगसमूह-
मुग्रम् ॥ २६७ ॥

प्रसवके दिन स्त्री उपवास करके प्रातःकाल वाय-
विडंगकी जड़को अडूसेके जलके साथ अथवा घीके
साथ पान करे तो प्रसूतके घोर छाँ रोगोका समूह
दूर होजाता है ॥ २६७ ॥

शुद्धैरण्डजटा शृङ्गी कणा शुण्ठी सु-
खास्पृहम् । सूतिका च प्रशान्त्यर्थं
निष्काथ्य मधुना पिबेत् ॥ २६८ ॥

कटेरी, अंडकी जड़, काकडाङ्गिगी, पीपल और
सोठ इनका मंदोष्ण काथ बनाकर शहद डालकर
मुखकी इच्छा करनेवाले पान करे इससे समस्त सूति-
कारोग नष्ट होते हैं ॥ २६८ ॥

निम्बवल्कलकल्कस्तु सर्पिषा का-
ञ्चिकेन तु । पीतः प्रशान्तयेन्नूनम-
चिरात्सूतिकागदम् ॥ २६९ ॥

नीमकी छालका कल्क बनाकर घी और काँजीके
साथ पान करनेसे सूतिकारोग शीघ्र नष्ट होता है २६९

पञ्चमूलकषायन्तु सूतिकां लवणा-
न्वितम् । सुखोष्णं पाययेत्पूतं सूति-
कारोगनाशनम् ॥ २७० ॥

पंचमूलका काथ बनाकर उसमें सैधानमक डाल-
कर प्रसूताको सुहाता सुहाता पान करानेसे सूतिका-
रोग नष्ट होता है ॥ २७० ॥

सूतिकारोगशान्त्यर्थं काथैर्वातहरा
क्रिया । स्वेदोपनाहनाभ्यङ्गैः साव-
वगाहैः प्रशस्यते ॥ २७१ ॥

सूतिकारोगको शांत करनेके लिये वातनाशक
काथोंके द्वारा समस्त वातनाशक क्रिया करे । तथा
वातनाशक स्वेद, उपनाह, अभ्यंग और अवगाह
इनका प्रयोग करे ॥ २७१ ॥

पञ्चमूलस्य वा काथं तप्तलोहेन स-
ङ्गतम् । सूतिकारोगनाशाय पिबे-
द्वातहरां सुराम् ॥ २७२ ॥

अथवा सूतिकारोगको विनाश करनेके लिए पंच-
मूलके काथमें संतप्त लोहेको बुझाकर पान करे ।
अथवा वातनाशक मदिरा पान करे ॥ २७२ ॥

सुतप्तलोहमाकृष्य वारुण्यान्तु नि-
धापयेत् । सूतिकोपद्रवान्सर्वान्हन्ति
पीत्वा न संशयः ॥ २७३ ॥

संतप्त लोहेको लेकर वारुणी नामक मदिरामें बुझा
देवे । उस मदिराको पान करनेसे सूतिकारोग और
उसके सब उपद्रव निःसन्देह नष्ट होते हैं ॥ २७३ ॥

वह्नौ तप्तेन लोहेन मुद्गयूषं सुवापि-
तम् । पीत्वैवं सूतिका नारी सर्व-
व्याधीन्व्यपोहति ॥ २७४ ॥

मूँगके थूपमे सन्तप्त लोहेको बुझाकर पान करनेसे समस्त सूतिकारोग नष्ट होते हैं ॥ २७४ ॥

अमृतानागरसहचरभद्रोत्कटपञ्चमूल-
जलदजलम् । शीतं पीतं मधुना सह
शमयति सूतिकान्तकम् ॥ २७५ ॥

गिलोय, सोठ, पियावाँसा, गंधप्रसारणी, पंचमूल, नागरमोथा और सुगन्धवाला इनका काथ बनाकर शीतल करके शहदके साथ पान करनेसे सूतिगरोग नष्ट होता है ॥ २७५ ॥

सहचरकुलित्थपुष्करवैकंकतदारुवे-
तसः काथः । पीतः सहिगुलवणः
शमयति शूलज्वरौ सूत्याः ॥ २७६ ॥

पियावाँसा, कुलथी, पोहकरमूल, विककत (कंटाई), देवदारु और वेत इनका काथ बनाकर हींग और सैधानमक डालकर पान करनेसे सूतिका स्त्रीका शूल और ज्वर नष्ट होता है ॥ २७६ ॥

सहचरमुस्तशुद्धचीभद्रोत्कटविश्ववा-
लकैः कथितम् । पेयमिदं मधुमिश्रं
सद्यो ज्वरशूलनुत्सूत्याः ॥ २७७ ॥

पियावाँसा, नागरमोथा, गिलोय, गंधप्रसारिणी, सोठ और सुगन्धवाला इन सबका काथ बनाकर ग-
हद डालकर पान करनेसे तत्काल प्रसूतास्त्रियोंका ज्वर और शूल नष्ट होता है ॥ २७७ ॥

देवदारुवचाकुष्ठं पिप्पलीविश्वभेष-
जम् । कट्फलं मुस्तभूनिम्बतित्ता-
धान्यहरीतकी ॥ २७८ ॥ गजकृष्णा
च दुस्पर्शा गोक्षुरं धन्वयासकम् ।
बृहत्यातिविषाच्छिन्नाः कर्कटं कृष्ण-
जीरकम् ॥ २७९ ॥ समभागान्वितै-
रेतैः सिन्धुरामठसंयुतम् । काथम-
ष्टावशेषन्तु प्रसूतां पाययेत्त्रियम् ॥
॥ २८० ॥ शूलकासज्वरश्वासमूर्च्छा-
कम्पशिरोऽर्त्तिनुत् । युक्तं प्रला-
पतृद्दाहतन्द्रातीसारवान्तिभिः ॥

१-यह देवदारुवादि काथ अवश्य ही इन समस्त गुणोंको करता है । आयुको बढ़ाता है इसमें सन्देह नहीं, वीसियों वारका परीक्षा किया हुआ है ।

निहन्ति सूतिकारोगं वातपित्तकफो-
त्थितम् ॥ २८१ ॥

देवदारु, वच, कूठ, पीपल, सोठ, कायफल, नागरमोथा, चिरायता, कुटकी, धनियाँ, हरड, गज-
पीपल, कटेरी, गोखुरु, धमासा, बड़ी कटेरी, अती-
स, गिलोय, काकडाँशिगी और काला जीरा इन सब औषधियोंको समान भाग लेकर इनका अष्टाव-
शेष काथ बनाकर हींग और सैधानमक डालकर प्रसूता स्त्रीको पान करानेमें शूल, खाँसी, ज्वर, श्वास, मूर्च्छा, कम्प, गिरकी पीडा, प्रलाप, तृपा, गह, तन्द्रा, अतीसार, वमन और वात, पित्त तथा कफसे उत्पन्न हुए समस्त प्रसूतके रोग नष्ट होजाते हैं ॥ २७८ ॥ २७९ ॥ २८० ॥ २८१ ॥

सिद्धं द्विपञ्चमूलाभ्यां पयः शर्करया
युतम् । सूतिकोपद्रवान्हन्ति पीत-
मात्रं न संशयः ॥ २८२ ॥

द्वगमूलकी औषधियोंके साथ दूधको पकाकर उसमें मिश्री डालकर पान करनेसे प्रसूतके समस्त उपद्रव नि.सन्देह शांत होते हैं ॥ २८२ ॥

कृष्णातन्मूलशुण्ठयेलाहिगुभाङ्गीस-
दीप्यकम् । वचामतिविषां रास्नां
चव्यं संचूर्ण्य पाययेत् ॥ २८३ ॥ स्ने-
हेन दोषशान्त्यर्थं वेदनोपशमाय
च । काथश्चैषां तथा कल्कं चूर्णं वा
स्नेहभर्जितम् ॥ २८४ ॥

दोषोंको शान्त करने और वेदनाको शमन करनेके लिये पीपल, पीपलामूल, सोठ, इलायची, हींग, भारंगी, अजमोद, वच, अतीस, रास्ना और चव्य इन सबका चूर्ण बनाकर घृतके साथ पान करावे । अथवा उपर्युक्त औषधियोंका काथ एवं कल्क या चूर्ण बनाकर घीमें भूनकर सेवन करावे २८३ ॥ २८४ ॥

शाकत्वग्धिग्वतिविषापाठाकटुकरो-
हिणी । तथा तेजोवती चापि पाय-
येत्पूर्ववद्विषक ॥ २८५ ॥

सागोनकी छाल, हींग, अतीस, पाढ, कुटकी और तेजबल इन औषधियोंका भी पूर्ववत् चूर्ण, कल्क अथवा काथ बनाकर वैद्य प्रसूता स्त्रीको सेवन करावे ॥ २८५ ॥

दशाहं भोजने देयं क्षीरं वातहरैः
शृतम् । रसेनान्नं दशाहञ्च शिरीषो
धावने हितः ॥ २८६ ॥

प्रसूतास्त्रीको दशदिनतक भोजनके लिए वातना-
शक औषधियोंके द्वारा दूधको पकाकर पान करावे ।
तथा दशदिनतक मासरसके साथ भात देवे । और
इसमें शिरसकी लकड़ीके द्वारा दतौन करना लाभ-
दायक है ॥ २८६ ॥

प्राजापत्येन विधिना जातकर्मादि
कारयेत् । पञ्चमेऽह्नि तृतीये वा स्त्री-
णां स्तन्यं प्रवर्तते ॥ २८७ ॥ प्रथमे
दिवसे तस्मात्रिकालं मधुसपिषी ।
अनन्तामिश्रिते मन्त्रैः पाययेत्प्रेरिते
शिशुम् ॥ २८८ ॥

प्राजापत्यविधिसे सम्पूर्ण जातकर्मादिक करे ।
पाँचवे अथवा तीसरे दिन स्त्रीके स्तनमे दूध प्रकट
होता है । इसकारण पहिले दिन तीनों समय शहद
घी और अनन्तमूलके चूर्णको एकत्र मिलाकर उससे
स्त्रीके स्तनको निम्न लिखित मन्त्रोसे अभिमांत्रित
करके बालकको दूध पिलावे ॥ २८७ ॥ २८९ ॥

चत्वारः सागराः पुण्याः स्तनयोः
क्षीरवाहिनः । भवन्तु सुभगे नित्यं
बालस्यायुर्बलप्रदाः ॥ २८९ ॥ पिव-
न्बालोऽमृतसमं पयस्तव शुभानने ।
दीर्घमायुरवाप्नोति देवाः प्राश्याऽमृतं
यथा ॥ २९० ॥

“चत्वारः सागराः . . . प्राश्याऽमृतं यथा”
यह मंत्र है ॥ २८९ ॥ २९० ॥

यष्टीनिशाविशेषण कृतरक्षो बलि-
क्रियाः । जगर्जुर्बान्धवास्तस्य दध-
न्तः परमां मुदम् ॥ २९१ ॥

मुलैठी और हलदीके द्वारा राक्षसोंको बलिदान
देवे और उसके बान्धवजन गर्जनपूर्वक मंत्र पढकर
हर्षसहित मंगलकार्य्य करे ॥ २९१ ॥

दशमे दिवसे पूर्णे विधिभिः कुश-
लोचितैः । कारयेत्सूतिकोत्थानं ना-
म बालस्य चार्चितम् ॥ २९२ ॥

दशदिनके पूर्ण होनेपर कार्य्यकरनेमे कुशल वैद्य
विधिपूर्वक सूतिकोत्थान करावे तथा बालकका नाम
करण संस्कार प्रभृति कार्य्य भी करावे ॥ २९२ ॥

तुम्बीपत्रं तथा लोध्रं सप्तभागानि
कारयेत् । दद्याल्लेपं भगस्येदं प्रसूता-
प्यक्षता भवेत् ॥ २९३ ॥

कढवी तोम्बीके पत्ते और लोध्र इन दोनों औषधि-
योको समान भाग लेकर एकत्र पीसकरके स्त्रीकी
योनिपर लेप करावे तो प्रसूता स्त्री भी अक्षत (त्रण-
रहित) योनि हो जाती है ॥ २९३ ॥

वैतसस्य सुमूलानि काथयेन्मृदुव-
र्दिना । भगः प्रक्षालितस्तेन गाढ-
त्वमुपगच्छति ॥ २९४ ॥

वैतकी जड़का मंद मंद अग्निके द्वारा काथ बनाकर
उससे योनिको धानेसे योनि गाढी (दृढ़) होजाती
है ॥ २९४ ॥

मूषिकाणां वसायाश्च वल्गुनीनां त-
थैव च ॥ योनिषु म्रक्षणं श्रेष्ठं कन्या-
करणमुत्तमम् ॥ २९५ ॥

चूहेकी चर्ची अथवा वल्गुनीकी चर्चीको योनिपर
मर्दन करनेसे योनि कन्याके समान होजाती है २९५

पलाशोदुम्बरफलं तिलतेलसमान्वि-
तम् । मधुना योनिभालिष्य गाढी-
करणमुत्तमम् ॥ २९६ ॥

ढाक और गूलरके फलोको तिलके तेलमे मिलाकर
शहदके साथ योनिके ऊपर लेप करनेसे योनि गाढी
होजाती है ॥ २९६ ॥

प्रसूतवनितावृद्धिकुक्षिद्वासाय संपि-
बेत् । प्रातर्मथितसंमिश्रं त्रिसप्ताहं
कणायुगम् ॥ २९७ ॥

प्रसूतास्त्रीकी कुक्षि वढजाती है, इसकारण उसको
कम करनेके लिये प्रातःकाल तीन सप्ताह पर्य्यंत पीपल
और पीपलामूलके चूर्णको मथित नामक तक्रके साथ
पान करे तो कुक्षि दबजाती है ॥ २९७ ॥

सूतायाः कुम्भमुदरं पीतं तत्रेण मा-
लतीमूलम् । घृतमधुलीढा सहसा क-
रोति धात्रीसमं निशा चैव ॥ २९८ ॥

मालतीकी जडको तक्रके साथ पीसकर घृत और शहदमे मिलाकर सेवन करनेसे अथवा आमलं और हलदीको समान भाग लेकर एकत्र पीसकर सेवन करनेसे प्रसृती स्त्रीका घंडकी समान बढा हुआ उदर छोटा होजाता है ॥ २९८ ॥

प्रतापलंकेश्वररस ।

एकेन्दुचन्द्रानलबाणकुम्भीकलैकभागं
क्रमशो विमिश्रम् । घृताभ्रगन्धो-
षणलोहशङ्खवनोत्पलाभस्मविषं सु-
पिष्टम् ॥ २९९ ॥ प्रसृतचापानलद-
न्तबन्धानपुराऽमृताब्दत्रिफलायुतोऽ-
यम् ॥ आर्द्राम्बुना वा किल सन्नि-
पातान्गुदांकुरान्वल्लमितो निहन्ति
॥ ३०० ॥ निजानुपानैर्निजपथ्यभु-
क्तान्सर्वातिसारग्रहणीगदांश्च । प्रता-
पलंकेश्वरनामधेयः सूतश्च प्रोक्तो
गिरिराजपुत्र्या ॥ ३०१ ॥

शुद्धपारा १ भाग, अभ्रक १ भाग, शुद्ध गन्धक १ भाग, कालीमिरच ३ भाग, लोह ५ भाग, शंख ८ भाग, आरनेरुपलोंकी राख १६ भाग और शुद्ध मीठा तैलिया १ भाग लेकर सबको एकत्र पीस लेवे यह रस दो २ रत्ती प्रणाम लेकर गूगल, गिलोय नागरमोथा और त्रिफलेके साथ मिलाकर सेवन कर-
नेसे प्रसूतरोग, धनुर्वात और दंतवेष्टरोगको नष्ट करता है । तथा अदरखके रसके साथ सेवन करनेसे सन्निपातजन्य अर्शरोगके अंकुरोंको नाश करता है । यह अनेकप्रकारके अनुपानोंके साथ अथवा यथोक्त प्रकारसे पथ्य पदार्थोंको सेवन करनेवाले मनुष्योंके सर्व प्रकारके अतिसार और सग्रहणीरोगको दूर करता है । इस प्रतापलंकेश्वर नामक रसको पार्वतीने कहा है ॥ २९९-३०१ ॥

शुष्काग्निमूलं निर्गुण्डीमेषशृङ्गी प्रसा-
रिणी । स्वरसः परिमृष्टः स्याद्विड्मु-
जीरकसंस्कृतः ॥ ३०२ ॥ कटुतैलेन
या नारी नक्तं भुञ्जीत वा पिबेत् ।
निहन्ति सूतिकारोगान्बलमग्नेर्लभेत
सा ॥ ३०३ ॥

सोंठ और चीतेकी जडकां निर्गुण्डी, मेढाशिगी और प्रसारिणी इनके स्वरसमे भूनकर हाँग और जीरेका बघार देकर कडवे तेलके साथ रात्रिमे जो स्त्री खाय अथवा पाने करे तो उसके सूतिकारोग नष्ट होते हैं और अभिके बलकी वृद्धि हाँती है ॥ ३०२ ॥

यवादियूष ।

यवकोलकुलित्यांश्च मुद्गमाषसमन्वि-
तान् । द्विपञ्चमूलसहितान्काथयेत्स-
लिलाढके ॥ ३०४ ॥ तत्काथे तक्र-
संयुक्ते यूपं कृत्वा सजीरकम् । घृतं
घृताक्षमात्रेण सैन्धवेन च योजितम्
॥ ३०५ ॥ एष यूषः प्रदातव्यश्चतुर्भा-
गावशेषितः । एतेनैव समश्नीयात्पु-
राणाञ्छालिषष्टिकान् ॥ ३०६ ॥ वा-
तशूलं सविष्टम्भं हन्ति मक्कलसंजि-
तम् । सूतिकारोगशमनो यूषोऽयं
परिकीर्तितः ॥ ३०७ ॥

जौ, बेर, कुलथी, मूँग, उडद, और द्रुमूलकी औषधियां इन सबको समान भाग लेकर एक आढक परिमाण जलमें पकावे और चतुर्भागावशिष्ट जलके रहनेपर उतार कर छान लेवे फिर उस काथमें तक्र डालकर जीरा, धी और सैधे नमकके द्वारा बघार देकर यूप बनावे । जब यह पकते पकते चौथाई भाग शेष रहजाय तब उतारकर सेवन करे । इसके साथ पुराने शालिचावल, और साठीचावलका भोजन करे । यह यूप-शूल, वातशूल, विष्टम्भ, मक्कलशूल और सूतिकारोगको शमन करता है ३०४-३०७ ॥

द्वितीय यवादियूष ।

यवकोलकुलित्यानां शालिमूलं तथैव
च । शस्तोऽयं सूतिकातंके यूपः
सर्वज्वरापहः ॥ ३०८ ॥

जौ, बेर, कुलथी, शालि धानकी जड इनका यूप बनाकर सूतिकारोगमें प्रयोग करे यह यूप सबप्रकारके ज्वरको दूर करता है ॥ ३०८ ॥

पिप्पल्यादियूष ।

पिप्पलीदेवकाष्टश्च भद्रमुस्तकमेव च ।
अगुरुपिप्पलीमूलं श्लक्ष्णपिष्टश्च का-

रयेत् ॥ ३०९ ॥ तत्रेण सह संयुक्तं पचे-
दूषं विचक्षणः । अयन्तु घृतसंयुक्तः
पीतमात्रो न संशयः ॥ ३१० ॥ वा-
तिकं पैत्तिकश्चैव श्लैष्मिकं सान्नि-
पातिकम् । सूतिकोपद्रवं हन्ति घृ-
क्षमिन्द्राशनिर्यथा ॥ ३११ ॥

पीपल, देवदारु, नागरमोथा, अगर और पीपल-
मूल इन सबको एकत्र वारीक पीसकर तक्रके साथ
इतका घृष बनावे । इस घृषको घृतके साथ पान कर-
नेसे वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक और सान्निपातिक
प्रसूतरोग और उसके उपद्रव इस प्रकार नष्ट होजा-
ते है, जैसे इन्द्रका वज्र वृक्षोंको तत्काल नाश कर
देता है ॥ ३०९ ॥ ३१० ॥ ३११ ॥

तृतीयघवादियूष ।

यवकोलकुलित्यानां शालिमूलं त-
थैव च । काथयेदप्रमत्तस्तु सुषूते
सलिलाठके ॥ ३१२ ॥ तत्पादाव-
स्थितं काथं सर्पिर्युक्तं सजीरकम् ।
पक्वं घृताक्षमात्रेण सैन्धवेन समायु-
तम् ॥ ३१३ ॥ एतेनैव च यूषेण चा-
शनीयाच्छालिषष्टिकम् । सूतिकोपद्र-
वं हन्ति भुक्तमात्रान्न संशयः ॥ ३१४ ॥

जौ, बेर, कुलथी और शालिधानोकी जड इन सब
औषधियोंका एक आठक जलमे काथ बनावे । जब
पकतेजल चौथाई भाग बाकी रह जाय तब उतार
कर वल्लमें छान लेवे । फिर इस काथमें बी और
जीरा डालकर संस्कार करे । पश्चात् घृत और सै-
न्धानमक डालकर इस घृषके साथ शालिचावल और
साठीके चावलको भोजन करे । इसको सेवन कर-
नेसे सूतिकाके समस्त उपद्रव शमन होते हैं ॥ ३१२ ॥
॥ ३१३ ॥ ३१४ ॥

पिप्पल्यादिकाथ ।

पिप्पलीदेवकाष्ठश्च आर्द्रकं गजपि-
प्पली । चित्रकं सैन्धवश्चैव पिप्पली-
मूलमेव च ॥ ३१५ ॥ सुखोष्णं यो-
जयेदेतत्सूतिकारोगशान्तये । वाति-

कान्पैत्तिकांश्चैव श्लैष्मिकान्सान्निपा-
तिकान् ॥ सूतिकोपद्रवान्हन्ति पतिं
ह्येतन्न संशयः ॥ ३१६ ॥

प्रसूताके सम्पूर्ण रोगोको शमन करनेके लिए
पीपल, देवदारु, अदरक, गजपीपल, चीता, सैधा-
नमक और पीपलामूल इन सबका काथ
बनाकर सुहाता २ पान करावे । यह काथ पान करते
ही वातजनित, पित्तजनित, कफजन्य और सन्निपात-
जनित सर्वप्रकारके सूतिकाके उपद्रवोका नाश करता
है ॥ ३१५ ॥ ३१६ ॥

पिप्पल्याद्यघृत ।

पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रको हस्ति-
पिप्पली । चव्यश्च रजनी देया भद्र-
मुस्तवचाभयाः ॥ ३१७ ॥ धान्या-
कमजमोदा च सपञ्चलवणानि च ।
भद्रदारुयवानी च भाङ्गीकुटजतण्डु-
लाः ॥ ३१८ ॥ कण्टकार्याश्च मूलं
वै बृहती बिल्वपेशिका । मरिचा-
नि विडङ्गानि कल्कैरेतैश्च पादिकैः ॥
॥ ३१९ ॥ यवकोलकुलित्यानां नि-
र्यूहे च चतुर्गुणे । दधिप्रस्थं पयःप्रस्थं
दत्त्वा प्रस्थं घृतं पचेत् ॥ ३२० ॥
वातिकान्पैत्तिकांश्चैव श्लैष्मिकान्सा-
न्निपातिकान् । सूतिकोपद्रवान्सर्वान-
भ्यङ्गादेव नाशयेत् ॥ ३२१ ॥

पीपल, पीपलामूल, चीता, गजपीपल, चव्य,
हलदी, नागरमोथा, वच, हरड, धनियॉ, अजमोद,
पांचोतमक देवदारु, अजवायन, भारंगी, इन्द्रजौ,
कटेरीकी जड, वेलगिरी, कालीमिरच और वाय-
विडग इन सबके एक एक भाग कल्कके साथ
जौ बेर और कुलथीके चौगुने काथमें एक
प्रस्थ दही, एक प्रस्थ दूध और एक प्रस्थ घृत
डालकर उत्तमविधिसे घृतको पकावे । यह घृत
मालिश करनेसे वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य,
और सन्निपातजन्य सर्व प्रकारके सूतिकाके उपद्रवो-
को शान्त करता है ॥ ३१७-३२१ ॥

भद्रोत्कटाद्यघृत ।

समूलपत्रशाखं तु शतं भद्रोत्कटस्य
च । वारिद्रोणेन साध्यं स्यात्स्थाप्यं
पादावशेषितम् ॥ ३२२ ॥ घृतप्रस्थं
विपक्तव्यं गर्भं दत्त्वा च कार्षिकम् ।
सव्योषं पिप्पलीमूलं चित्रको जीर-
कं तथा ॥ ३२३ ॥ पञ्चमूलं कनिष्ठ-
न्तु रास्नैरण्डसमायुक्तम् । बलासिन्धु-
श्वक्षारं स्वर्जिकाकृष्णजीरकम् ३२४ ॥
सिद्धमेतद्घृतं सद्यो निहन्यात्सूति-
कागदान् । ग्रहणीं पांडुरोगश्च अर्शा-
सि जठरं तथा ॥ अग्निश्च कुरुते
दीप्तिं स्त्रीणां स्तन्यस्य शोधनम् ३२५

मूल, पत्र और शाखासहित प्रसारणीको १००
पल लेकर एक द्रोण जलमें पकावे । जब पकते २
जल चौथाई भाग वाकी रह जाय तब उत्तार कर छान
लेव फिर इस काथमे त्रिकुटा, पीपलामूल, चीता,
जीरा, लघुपंचमूल, रायसन, अण्डकी जड़, खिरैटी,
सैधानमक, जवाखार, सज्जी और काला जीरा इन
प्रत्येक औषधिका कलक एक एक तोला डालकर
उसके साथ एक प्रस्थ घृतको विधिपूर्वक पकावे ।
इस प्रकार सिद्ध किया हुआ यह घृत सेवन
करनेसे समस्त प्रसूतारोग, एव सग्रहणी, पांडु रोग,
दवासीर और उदररोग इन सबको दूर करता है
तथा अग्निको दीपन करता है और स्त्रियोंके दूधको
शुद्ध करता है ॥ ३२२-३२५ ॥

पञ्चजीरकगुड ।

जीरकं हपुषा धान्यं शताह्वा बदरा-
णि च । यवानीमेथिकाहिंशुपत्रिका
कासमर्दकम् ॥ ३२६ ॥ पिप्पली पिप्प-
लीमूलमजमोदाथ बाष्पिका । चि-
त्रकश्च पलांशानि तथा धान्यश्चतु-
ष्पलम् ॥ ३२७ ॥ कशेरुकं नागरश्च
यष्टीदीप्यकमेव च । गुडस्य च शतं
दद्याद्घृतप्रस्थं तथैव च ॥ ३२८ ॥
क्षीरद्विप्रस्थसंयुक्तं शनैर्मृद्धिना प-
चेत् । पञ्चजीरकमित्येतत्सूतिकानां ।

प्रशस्यते ॥ ३२९ ॥ गर्भाग्निनीनां
नारीणां वृंहणिये समारुते । विंश-
तिं व्यापदो योनेः श्वासं कासं स्व-
रक्षयम् ॥ ३३० ॥ हलीमकं पांडुरोगं
दोर्वलयं मूत्रकृच्छ्रताम् । हान्ति पी-
तोन्नतक्वचाः पद्मपत्रायतेक्षणाः ॥
उपयोगात्स्त्रियो नित्यमलक्ष्मीमल-
वर्जिताः ॥ ३३१ ॥

जीरा, हाऊवेर, धनियाँ, जतावर, घेर, अजवायन,
भेथी, हिंगुपत्री, कसौदी, पीपल, पीपलामूल, अज-
मोद, हींग, और चीता ये प्रत्येक औषधिये चार ४
तोले और धनियाँ १६ तोले, एवं कजेरु, सोठ, मुलैठी
और अजमोद ये प्रत्येक चार २ पल लेकर सबका
एकत्र चूर्ण करके फिर १०० पल गुड, एक प्रस्थ
घृत और दो प्रस्थ दूध इन सबको लेकर एकत्र करके
धीरे २ मन्द २ अग्निसे पकावे । पहले गुड, घृत
और दूधको पकावे । जब घन होनेपर आवे तब
दवाइयोके चूर्णको डाले । इसको पंचजीरकगुड
कहते हैं । यह पंचजीरकगुड प्रसूतास्त्रियोंको
अत्यन्त हितकारी है । यह पंचजीरक गुड गर्भकी
इच्छा करनेवाली स्त्रियोंको अत्यन्त पुष्टिकारक
है और वात शमन करता है । तथा बीसप्रकारके
योनिरोग, श्वास, खासी, स्वरभंग, हलीमक, पाण्डु-
रोग, दुर्बलता और मूत्रकृच्छ्रता इन सब रोगोंको
नष्ट करता है । इसको नित्य व्यवहार करनेसे
अलक्ष्मी और मलसे रहित होकर स्त्रिये उन्नतस्तनो
वाली और कमलके समान नेत्रोवाली होजाती
हैं ॥ ३२६-३३१ ॥

अथ स्तनरोगका निदान ।

सक्षीरौ वाप्यदुग्धौ वा प्राप्य दोषः
स्तनौ स्त्रियाः । प्रदूष्य मांसं रुधिरं
स्तनरोगाय कल्पते ॥ ३३२ ॥

प्रसूता स्त्रीके वातादि दोष, दूधसंयुक्त अथवा दूध
हीन स्तनोमे प्राप्त होकर मांस और रुधिरको दूषित
करके स्तनरोगको उत्पन्न करते हैं ॥ ३३२ ॥

यत्सरक्तं तनुखावं रुधिरामिषगन्ध-
कम् । शोथवृद्धिसमायुक्तं सरुजश्च
पयोधरम् ॥ ३३३ ॥

उन स्तनोंमें पतला और मांसके समान गन्धवाला रुधिर स्रवता है । तथा उनमें सूजनकी वृद्धि और पीडा होती है ॥ ३३३ ॥

पश्चानामपि तेषां हि रक्तजं विद्रधिं विना । लक्षणानि समानानि बाह्य-विद्रधिलक्षणैः ॥ ३३४ ॥

यह स्तनरोग—वात, पित्त, कफ, सन्निपात और आगन्तुज इन भेदोंसे पांच प्रकारका है । इसके लक्षण रक्तजविद्रधिको छोड़कर बाह्यविद्रधिके समान जानने चाहिए ॥ ३३४ ॥

स्तनरोगकी चिकित्सा ।

शोथं स्तनोत्थितमवेक्ष्य भिषग्विद-ध्याद्यद्विद्रधावपि हितं बहुधा विधानम् । आमे विदाहिनि तथैव गते च पाकं तस्याः स्तनौ सततमेव विनिर्दुहीतः ॥ ३३५ ॥

स्त्रीके स्तनोंमें सूजन उत्पन्न हो तो वैद्य विद्रधि-अधिकारोक्त अनेक प्रकारकी चिकित्सा करे और यदि स्तनकी सूजन अपक्व अथवा पक्व या दाहयुक्त हो तो भी उनमेंसे दूध निकाल देवे ॥ ३३५ ॥

जलौकाभिर्हरेद्रक्तं न स्तनावुपनाहयेत् । दुःखस्तना तु या नारी सा शीघ्रं सुखिनी भवेत् ॥ ३३६ ॥

स्तनोकी सूजनपर जोक लगाकर रुधिर निकलवावे किंतु स्तनगोथमें स्वेद कभी नहीं देवे । इस प्रकार करनेसे स्तनोके दुःखसे पीडित स्त्री शीघ्र ही सुखी होती है ॥ ३३६ ॥

लेपो विशालमूलेन हन्ति पीडां स्तनोत्थिताम् । निशाकनककलकाभ्यां लेपश्चापि स्तनार्तिहा ॥ ३३७ ॥

इन्द्रायणकी जड़का लेप करनेसे स्तनजनित पीडा शांत होजाती है । हलदी और धतूरेके पत्र पीसकर लेप करनेसे भी स्तनकी पीडा शमन होती है ॥ ३३७ ॥

लेपो निहन्ति मूलं बन्ध्याककोटकी-भवं शीघ्रम् । निर्वाप्य तप्तलोहं सलिले तद्वा पिवेत्तत्र ॥ ३३८ ॥

बाँझककोडेकी जड़को पीसकर प्रलेप करनेसे स्तनोंकी पीडा शांत होती है । अथवा जलमें संतप्त

लोहेको घुझाकर उस जलको पान करनेसे स्तनोंकी पीडा शांत होती है ॥ ३३८ ॥

याष्टिर्निम्बं हरिद्रा च निर्गुण्डीधातकीसमम् । चूर्णं स्तनव्रणे देयं रोपणं कुरुते भृशम् ॥ ३३९ ॥

मुलैठी, नीम, हलदी, सम्हालू और धायके फूल इन सबका एकत्र चूर्ण करके उस चूर्णको स्तनोंके व्रणोंके उपर डालनेसे व्रण भर जाते हैं ॥ ३३९ ॥

अथ स्तन्यरोगका निदान ।

गुरुर्विदग्धाहारैस्तु दुष्टैर्दोषैः प्रदूषितम् । क्षीरं धात्र्याः कुमारस्य नानारोगाय कल्पते ॥ ३४० ॥

अनेक प्रकारके भारी और विदग्धपाकी भोजन करनेसे वातादि दोषोंके दूषित होजानेके कारण धायका दूध दूषित होजाता है उस दूधको पीनेवाले बालकको अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होजाते हैं ३४०

लवणं तलु चाम्लश्च कटुकं फेनिलं तथा । मांसधावनसंकाशं पीतकश्च तथैव च ॥ ३४१ ॥ एतत्सतविधं क्षीरमशुद्धं जीवकोऽब्रवीत् । करोति लवणं क्षीरं बालस्य मलनिर्गमम् । तलुक्षीरं कफं क्लृप्यादम्लश्च मुखपाकताम् ॥ ३४२ ॥ मांसधावनसंकाशं छर्दिश्च कुरुते शिशोः । फेनिलं श्वासकासन्तु मूत्रलं कटुपीतकम् ॥ ३४३ ॥

वह दूषित दूध खारी, पतला, खट्टा, चरपरा, झागोदार, मांसके धोवनके समान और पीला ऐसे सात प्रकारका दूध अशुद्ध होता है। इनमें खारी दूध बालकोके मलकी प्रवृत्ति (दस्तोका होना) को करता है । पतला दूध कफको करता है । खट्टादूध मुखपाकको करता है तथा मांसके धोवनके समान दूध वमनको करता है । झागोदार दूध श्वास और खाँसीको करता है । चरपरा और पीला दूध अधिकतर मूत्रको लाता है ॥ ३४१ ॥ ३४२ ॥ ३४३ ॥

कषायं सलिलप्लावि स्तन्यं मारुत-दूषितम् । कट्वम्ललवणं पीतराजिम-त्पित्तसंयुतम् ॥ ३४४ ॥

वातसे दूषित दूध कपैला और जलमें डालनेसे डूब जाता है । पित्तसे दूषित दूध कटु, अम्ल, लवण स्वादवाला और पीली पीली रेखाओवाला होता है ॥ ३४४ ॥

कफदुष्टं घनं तोये निमज्जति सपि-
च्छलम् । द्विलिङ्गं द्वन्द्वजं विद्यात्स-
र्वलिङ्गं त्रिदोषजम् ॥ ३४५ ॥

कफसे दूषित दूध-गाढा, अत्यन्त पिच्छल और जलमें डालनेसे डूब जाता है । दो दोषोंसे दूषित दूध—दो दोषोंके लक्षणोंसेयुक्त होता है और त्रिदोषसे दूषित दूधमें तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हैं ॥ ३४५ ॥

शुद्धदूधके लक्षण ।

अदुष्टं चाम्बुनिक्षितमेकीभवति पांडु-
रम् । मधुरश्च विवर्णश्च प्रसन्नं तत्प्र-
शस्यते ॥ ३४६ ॥

शुद्ध दूध जलमें डालनेसे एकसा श्वतरंगका रहता है, तथा वह मधुर, वर्ण रहित और सुन्दर होता है ॥ ३४६ ॥

स्तन्यरोगकी चिकित्सा ।

तत्र वातात्मके स्तन्ये दशमूलं घ्यहं
पिबेत् । वातव्याधिहरं सर्पिः पीत्वा
मृदु विरेचयेत् ॥ ३४७ ॥

वातसे दूषित दूधमें तीन दिनतक दशमूलका काथ पान करे । तथा वातनाशक औषधियोंके द्वारा सिद्ध किये हुए घृतको पान कराकर मृदु विरेचन देवे ॥ ३४७ ॥

वस्तिकर्म ततः कुर्यात्स्नेहादींश्वा-
निलापहान् ॥ ३४८ ॥

पश्चात् वातनाशक स्नेहोंका और वस्तिकर्मका प्रयोग करे ॥ ३४८ ॥

पित्तदुष्टेऽमृताभीरुपटोलं निम्बचन्द-
नम् । धात्रीकुमारश्च पिबेत्काथयि-
त्वा सशर्करम् ॥ ३४९ ॥

पित्तसे दूषित दूधमें गिलोय, शतावर, पटोलपत्र, नीम और लालचन्दन इनका काथ बनाकर मिश्री डालकर बालक और धायको पिलावे ॥ ३४९ ॥

अथवा त्रिफलोशीरनिम्बं कटुकरो-
हिणी । शारिवादिगणैः सिद्धं घृतं ।

पीत्वा ततोऽनु च ॥ पित्तघ्नं रेचनं
कुर्याच्छीतं चाभ्यङ्गलेपनम् ॥ ३५० ॥

अथवा त्रिफला, खस, नीम, कुटकी और शारि-
वादिगणकी औषधियोंके कत्कके द्वारा घृतको सिद्ध
करके पान करे । पश्चात् पित्तनाशक रेचन देवे और
शीतल अभ्यंग एवं लेप करे ॥ ३५० ॥

कफदुष्टे घृतं पीत्वा यष्टीसैन्धवसंयु-
तम् । रामपुष्पैः स्तनौ लिम्पेच्छि-
शोश्च दशनच्छदौ ॥ सुखमेवं वमद्वेदा-
लस्तीक्ष्णैर्धात्रीश्च वामयेत् ॥ ३५१ ॥

कफसे दूषित दूधवाली धाय मुलैठी, सेंधानमक
मिलाकर घृतका पान करके चिरायताको पीसकर
स्तनोंपर लेप करे तथा बालकके दाँतोंपर और होठों-
पर लेप करे । बालकको मृदु औषधियोंके द्वारा वमन
करावे और तीक्ष्ण औषधियोंके द्वारा धायको वमन
करावे ॥ ३५१ ॥

अन्यान्यलक्षण ।

स्तन्ये त्रिदोषसंदुष्टे शकृदामं जलो-
पमम् । नानावर्णरुजं चार्द्धं विबद्ध-
मुपवेश्यते ॥ ३५२ ॥

त्रिदोषसे दूषित दूधमें तो आमसाहित, जलके
समान, अनेक वर्णका, अनेक प्रकारकी पीडायुक्त,
तथा जलमें डालनेसे आधा ऊपर और आधा नीचे
तैरनेवाला मल निकलता है ॥ ३५२ ॥

भ्रमारोचकवम्यास्यपाकतृष्णाज्वरा-
दयः । स्युर्यत्र तं विजानीयात्क्षी-
रालसकसंज्ञितम् ॥ ३५३ ॥

जिसमें भ्रम, अरुचि, वमन, मुखपाक, तृष्णा,
और ज्वर आदिक उपद्रव हो उस रोगको क्षीरालसक
रोग कहते हैं ॥ ३५३ ॥

तस्य चिकित्सा ।

बालं तत्र च धात्रीश्च मृदुरैकैर्विरेच-
येत् ॥ ३५४ ॥ क्रमं पेयादिकश्चैव मु-
स्तादिः संप्रयोजयेत् । पेयादिकं क्रमं
कृत्वा मुस्तादि पाययेद्घृतम् ॥ ३५५ ॥
धात्री क्षीरविशुद्धचर्थं मुद्गयूषरसाशि-
नी । भार्ङ्गीदारुवचापाठाः पिबेत्सा-
तिविषाः शृताः ॥ ३५६ ॥

इस रोगमें बालक और धायको मृदु औषधियोंके द्वारा विरेचन देंव । एवं पेयादिके क्रमसे मुस्तादि करे । और पेयादिके क्रमसेही मुस्तादि घृत प्रयोग करे । धाय दूधको शुद्ध करनेके लिये मूँगके चूपका भोजन करे । तथा भारंगी, देवदारु, वच, पाठ और अतीस इनका काथ बनाकर पान करावे ॥ ३५४ ॥ ३५५ ॥ ३५६ ॥

पाठा मूर्वा च भूनिम्बदारुशुण्ठीक-
लिङ्गकाः । शारिवामृततित्ताख्याः
काथः स्तन्यविशोधनः ॥ ३५७ ॥
हारिद्राद्यं वचाद्यं वा पिबेत्स्तन्यवि-
शुद्धये ॥ ३५८ ॥

पाठ, मूर्वा, चिरायता, देवदारु, सोठ, इन्द्रजौ, शारिवा, गिलोय और कुटकी इनका काथ दूधको शुद्ध करता है । अथवा हरिद्राद्य, या वचाद्य घृतको दूध शुद्ध करनेके लिये पान करे ॥ ३५७ ॥ ३५८ ॥

पटोलनिम्बासनदारुपाठा मूर्वा गु-
डूची कडुरोहिणीश्च । सनागरं वा
काथितश्च तोये धात्री पिबेत्स्तन्यवि-
शुद्धिहेतोः ॥ ३५९ ॥

पटोलपात, नीम, विजयसार, देवदारु, पाठ, मूर्वा, गिलोय, कुटकी और सोठ इनका काथ बनाकर धाय दूधको शुद्ध करनेके लिये पान करे ॥ ३५९ ॥

भूमिकूष्माण्डमूलं पिबति क्षीरेण
या नारी । सशर्करेणैव पुष्टा ह्यतिश-
यद्गुधवती सा भवति ॥ ३६० ॥

जो स्त्री विदारीकन्दको दूधके साथ पीसकर मिश्री मिलाकर पान करे तो वह अत्यन्त पुष्ट होती है और उसके स्तनोंमें अत्यन्त दूध उत्पन्न होता है ॥ ३६० ॥

कमलस्य तंडुलानां कल्कं क्षीरेण
दाधि पिबेदबला । सा भवति प्रचुर-
क्षीरा वनकुचयुगलापि वार्द्धकेय ३६१

कमलगट्टेकी गिरीको पीसकर दूध और दहीके साथ पान करनेसे स्त्रीके स्तनोंमें अत्यन्त दूध उत्पन्न होता है । और वृद्ध अवस्थामें भी कुच पुष्ट होते हैं ॥ ३६१ ॥

वनकार्पासिकेक्षूणां मूलं सौवीरकेण
च । विदारीकन्दस्वरसं पिबेद्वा स्त-
न्यवर्द्धनम् ॥ ३६२ ॥

वनकपासकी जड़ और ईखकी जड़को सौवीरनामक काँजीके साथ पीसकर पान करनेसे अथवा केवल विदारीकन्दके स्वरसको पान करनेसे स्तनोंमें दूधकी वृद्धि होती है ॥ ३६२ ॥

वज्रकाञ्जिक ।

पिप्पली पिप्पलीमूलचव्यशुण्ठिय-
वानिकाः । जीरके द्वे हरिद्रे च विडं
सौवर्चलं तथा ॥ ३६३ ॥ एतैरेवौष-
धैः पिष्टैरारनालं विपाचयेत् । आ-
मवातहरं वृष्यं कफघ्नं वह्निदीपनम् ।
वज्रकं काञ्जिकं नाम स्त्रीणामग्निप्रव-
र्द्धनम् ॥ ३६४ ॥

पीपल, पीपलामूल, चव्य, सोठ, अजवायन, जीरा, कालाजीरा, हलदी, दारुहलदी, विरियासंचर नमक और कालानमक इन सबको एकत्र पीसकर इनके साथ काँजीको पकावे । इसको वज्रकाँजी कहते हैं यह वज्रकाँजी आमवातनाशक, वृष्य, कफनाशक, अग्निप्रवर्धक और स्त्रियोंके अग्निको अत्यन्त दीपन करती है ॥ ३६३ ॥ ३६४ ॥

पत्रकाञ्जिक ।

स्वर्णशेफालिकापत्रं स्नुहीपत्रं तथैव
च । चित्रकस्य च पत्राणि पत्रं सा-
खोटकस्य च ॥ ३६५ ॥ वासितं का-
ञ्जिकाम्लेन वातश्लेष्मगदापहम् ।
पत्रकाञ्जिकमाख्यातं स्त्रीणां क्षीरवि-
वर्द्धनम् ॥ ३६६ ॥

पीले पीले हारसिगारके पत्ते, थूहरके पत्ते, चीतेके पत्ते और सिंघाटेके पत्ते इन सबको अम्लकाँजीमें वासना देकर सेवन करनेसे वात और कफके रोग नष्ट होते हैं । इसको पत्रकाँजी कहते हैं । यह पत्रकाँजी स्त्रियोंके दूधको बढ़ानेवाली है ॥ ३६५ ॥ ३६६ ॥

अलंबुपाद्यतैल ।

अलम्बुषाकणाकल्कैः सिद्धं तैलं क-
रोति वनितायाः । पिचुधारणनस्य-
दानात्कुचद्वयं श्रीफलाकारम् ॥ ३६७ ॥

काटोवाली लजावन्ती और पीपलके कल्कके द्वारा तेलको पकाकर उस तेलके फाये रखनेसे अथवा नस्य देनेसे स्त्रीके दोनो कुच नारियलके समान होजाते हैं ॥ ३६७ ॥

श्रीपर्णीतैल ।

श्रीपर्णीरसकल्काभ्यां तैलं सिद्धं तिलोद्भवम् । तत्तैलं तूलकेऽन्यस्य स्तनयोः परिधारयेत् ॥ ३६८ ॥ पतितावुत्थितौ स्त्रीणां भवेयातां पयोधरौ । गजकुम्भसमाकारावुत्पन्नौ परिमण्डलौ ॥ ३६९ ॥

अरणीके स्वरस और कल्कके द्वारा तिलके तेलको पकावे । उस तेलके द्वारा रुईके फाये भिजोकर स्तनोंपर धारण करनेसे पतित हुए स्तन भी फिरसे उठ आते हैं । तथा स्तनोंके मण्डल हाथीके कुम्भस्थलके समान होजाते हैं ॥ ३६८ ॥ ३६९ ॥

शङ्खचूर्णस्य भागौ द्वौ हरितालश्च भागिकम् । चुक्रेण सह संयुक्तं लोमशातनमुत्तमम् ॥ ३७० ॥

शंखका चूर्ण २ भाग और हरिताल १ भाग इनको सिरकेके साथ पीसकर लेप करनेसे रोम गिरजाते हैं ॥ ३७० ॥

तैलं कुसुम्भकस्याथ स्तुहीक्षीरं तथैव च । प्रगृह्यैकत्र मतिमाल्लोमशातनमुत्तमम् ॥ ३७१ ॥

कसूमका तेल और शूहरका दूध इन दोनोको एकत्र मिलाकर लेप करनेसे रोम गिरजाते हैं ॥ ३७१ ॥

कदलीदीर्घवृन्तानां भस्मालं लवणं शमी । बीजं शीताम्भसा पिष्टं लोमशातनमुत्तमम् ॥ ३७२ ॥

केला और श्योनाकके पत्तोकी भस्म हरताल नमक और छोंकरके बीज इनको शीतल जलके साथ एकत्र पीसकर लेप करनेसे रोम गिरजाते हैं ॥ ३७२ ॥

कासीसाद्यतैल ।

कासीसतुरगगन्धासावरगजपिप्पलीविपक्वेन । तैलेन यान्ति वृद्धिं स्तनकर्णपालिलिङ्गानि ॥ ३७३ ॥

हीराकसीस, असगन्ध, लोध और गजपीपल इनके द्वारा तेलको पकाकर लेप करनेसे स्तन, लिंग और कर्णपाली बढ जाती है ॥ ३७३ ॥

हरितालभाग एको भागः पञ्चैव शंखचूर्णस्य । भागः पलाशभस्मत एतल्लेपात्कचा न स्युः ॥ ३७४ ॥

हरिताल १ भाग, शंखका चूर्ण ५ भाग और ढाककी भस्म १ भाग इन सबको एकत्र मिलाकर लेप करनेसे बाल गिरजाते हैं ॥ ३७४ ॥

करवीराद्यतैल ।

करवीरशिफादन्ती त्रीणि कोशातकानि च । रम्भाक्षारोदके तैलं प्रशस्तं लोमशातनम् ॥ ३७५ ॥

कनेरकी जड, दंती और तोरई इन तीनोंको एकत्र पीसकर उसके साथ केलेके खारके जलमें पकावे । यह तेल रोमोको पतित करनेमें उत्तम है ॥ ३७५ ॥

कर्पूराद्यतैल ।

कर्पूरभल्लातकशङ्खचूर्णं क्षारो यवानां सुमनःशिला च । तैलं विपक्वं हरितालमिश्रं लोमानि निर्मूलयति क्षणेन ॥ ३७६ ॥

कपूर, भिलावे, शंखका चूर्ण, जवाखार और मैन्शिल इन सबका कल्क बनाकर तेलको पकावे । इसमें हरिताल का चूर्ण डालकर लेप करनेसे क्षणभरमें सम्पूर्ण बाल गिरजाते हैं ॥ ३७६ ॥

अथ योनिकन्दनिदान ।

दिवास्वप्नादतिक्रोधाद्व्यायामादतिमैथुनात् । क्षताच्च नखदन्ताद्यैर्वाताद्याः कुपिता यदा ॥ ३७७ ॥ पूयशोणितसंकाशं लकुचाकृतिसत्रिभम् । उत्पद्यते यदा योनौ नाम्ना कन्दस्तु योनिजः ॥ ३७८ ॥

दिनमें सोनेसे, अत्यन्त क्रोध करनेसे, अत्यन्त परिश्रम करनेसे, अत्यन्त मैथुन करनेसे और नख

तथा दाँत आदिके द्वारा घाव होजानेसे अपने अपने कारणोंसे वातादि दोष कुपित होकर योनिमें राधके समान, लीवरके समान और बडहलके समान जो गोंठ उत्पन्न करते हैं, उसको योनिकन्दरोग कहते हैं ॥ ३७७ ॥ ३७८ ॥

वातादिभेदसे रूप ।

रूक्षं विवर्णं स्फुटितं वातिकन्दु
विनिर्दिशेत् ।

जो योनिकन्द रूखा, विवर्ण और फटासा होता है उसको वातजनित जानना चाहिए ।

दाहरागज्वरयुतं विद्यात्पित्तात्मकं
तु तत् ॥ ३७९ ॥

जो योनिकन्द दाह, लाली और ज्वरसहित हो उसको पित्तजनित जानना चाहिए ॥ ३७९ ॥

नीलपुष्पप्रतीकाशं कंडूभक्तं कफा-
त्मकम् । सर्वलिङ्गसमायुक्तं सन्निपा-
तात्मकं वदेत् ॥ ३८० ॥

जो योनिकन्द नीले फूलके समान और खुजली सहित हो उसको कफजनित जानना एव जिस योनिकन्दमें वातादि तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हो उसको सन्निपातजनित जानना चाहिए ॥ ३८० ॥

योनिकन्दकी चिकित्सा ।

स्वेदयेद्वातिकं कन्दं पित्तिकन्दु विरे-
चयेत् । कफजे वमनं भूयः सर्वजे
सर्वमर्हति ॥ ३८१ ॥

वातजयोनिकन्दमें प्रथम स्वेदन करे । पित्तजयो-
निकन्दमें विरेचन देवे । कफजनितयोनिकन्दमें प्रथम
वमन करावे और त्रिदोषजयोनिकन्दमें मिश्रित
चिकित्सा करे ॥ ३८१ ॥

त्रिफलायाः कषायेण मधुयुक्तेन से-
चयेत् । प्रमदा योनिकन्देन व्याधिना
परिसुच्येत् ॥ ३८२ ॥

त्रिफलके काथमे गहद डालकर योनिको सेचन
करनेसे वी योनिकन्दरोगसे मुक्त होती है ॥ ३८२ ॥

गैरिकाञ्जनजन्तुघ्नकङ्कफलाश्वास्थिचू-
र्णिनैः ॥ पूरयेत्सततं योनिं निशा-
क्षौद्रसमायुतैः ॥ ३८३ ॥

गेरु, अंजन, वायविडंग, कायफल, आमकी
गुठली और हलदी इन सबको चूर्ण करके गहदमें
मिलाकर योनिमें भरे ॥ ३८३ ॥

पूरयेच्चाभयारिष्टं मध्वारिष्टमथापि
वा । महामायूरमथवा बस्तौ पाने
प्रयोजयेत् ॥ ३८४ ॥

अभयारिष्ट अथवा मध्वारिष्ट या महामायूरघृतको
वस्ति और पानकर्ममें प्रयोग करे ॥ ३८४ ॥

कोलेभकस्य मांसेन कन्दः शाम्य-
ति योषिताम् । मूषिकाजंससंयुक्तं
तैलमातपभावितम् । अभ्यङ्गाद्भ्रन्ति
कन्दं वा स्वेदं तन्मांससैन्धवैः ॥ ३८५ ॥
आखोर्मांसं सपदि बहुधा सूक्ष्मख-
ण्डीकृतं यत्तैले पाच्यं द्रवति निय-
तं यावदेतेन सम्यक् । तत्तैलान्तं व-
सनमनिशं योनिभागे दधानं हन्ति
व्रीडाकरभगफलं नात्र सन्देह-
बुद्धिः ॥ ३८६ ॥

सूअरके मास और मँडकके मांसके द्वारा भी
स्त्रियोंका योनिकन्दरोग शमन होता है । चूहेके मांस-
को तेलमें डालकर धूपमें भावना देकर उसके द्वारा
अभ्यंग करनेसे अथवा चूहेके मांसमें सैधानमक डाल
कर स्वेद देनेसे योनिकन्द रोग शमन होता है ।
चूहेके मांसके बहुत छोटे २ टुकड़े करके तेलमें पका
लेवे । उस तेलमें वस्त्रको भिजोकर नित्य योनिमें
रखनेसे लजाजनक योनिकन्द निस्सन्देह शमन
होजाता है ॥ ३८५ ॥ ३८६ ॥

पिष्टं शंबूकमांसञ्च पक्वं तित्तिडिसं-
युतम् । लेपमात्रेण नारीणां योनिक-
न्दहरं परम् ॥ ३८७ ॥

धोंधेके मांसको पीसकर उसमें पकी तित्तिडिका
रस मिलाकर लेप करनेसे स्त्रियोंका योनिकन्दरोग
नष्ट होता है ॥ ३८७ ॥

घोषकस्वरसः पतितो मस्तुना च स-
मन्वितः । योनिकन्दं निहन्त्याशु
तन्नाडी चैव धूपतः ॥ ३८८ ॥

कडवी तोरईके स्वरसमे दहीका पानी मिलाकर पान करनेसे योनिकन्दरोग नष्ट होता है। अथवा उसकी नाडीकी धूप देनेसे भी योनिकन्द नष्ट हो जाता है ॥ ३८८ ॥

सद्यो व्रीडाकरं कदं योनेर्बहुविकारजम् । शलाकया तप्तया वा दहेत्तु कुशलो भिषक् ॥ ३८९ ॥

अथवा सन्तप्त लोहेकी शलाकासे योनिकन्दको दहन करे तो बहुत विकारोसे उत्पन्न हुआ लज्जाजनक योनिकन्द शीघ्र नष्ट होना है ॥ ३८९ ॥

एतत्कन्दस्य निर्दिष्टं समासेन चिकित्सितम् ।

योनिकन्दकी यह संक्षेपसे चिकित्सा कही है। इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां स्त्रोरोगनिदान चिकित्साधिकार समाप्त ॥ ६९ ॥

अथ बालरोगाधिकार ।

बालरोगका निदान ।

त्रिविधः कथितो बालः क्षीरान्नोभयवर्त्तकः । स्वास्थ्यं ताभ्यामदुष्टाभ्यां दुष्टाभ्यां रोगसम्भवः ॥ १ ॥

पहिले दूधको पीनेवाले, दूसरे अन्नको खानेवाले और तीसरे दूध और अन्न दोनोंको सेवन करनेवाले इस प्रकार बालक तीन प्रकारके होते हैं। इनमें दूध और अन्नके अदूषित होनेसे बालक निरोगी रहते हैं और दूध तथा अन्नके दूषित होजानेसे बालक रोगी होजाते हैं ॥ १ ॥

दन्तोद्रेदस्तु सर्वेषां रोगाणामपि कारणम् । विशेषान्ज्वरविद्भेदकासच्छर्दिशिरोरुजः । अभिष्यन्दश्च शोथश्च विसर्पश्चापि जायते ॥ २ ॥

बालकके दाँतोका निकलना सम्पूर्ण रोगोंका कारण कहा जाता है। इसमें विशेष करके ज्वर, दस्तोंका

होना, खाँसी, वमन, शिरकी पीडा, नेत्रोंका दुखना सूजन और विसर्प ये सब उपद्रव होते हैं ॥ २ ॥

पृष्ठभङ्गे बिडालानां बर्हिणाश्च शिखोद्गमे । दन्तोद्रेदे च बालानां न ते किञ्चिन्न दूयते ॥ ३ ॥

बिलावकी पीठमें चोट लगनेके समय, मोरकी चोटीके उत्पन्न होते समय और बालकोंके दाँतोंके निकलते समय अवश्य घोर पीडा होती है ॥ ३ ॥

वातदूषितदूधके लक्षण ।

वातदुष्टं शिशुः स्तन्यं पिबन्वातगदातुरः । क्षामस्वरः कृशाङ्गः स्याद्बद्धविण्मूत्रमारुतः ॥ ४ ॥

जो बालक वातसे दूषित दूधको पीता है वह वातके रोगोसे पीडित होता है। उसका स्वर क्षीण होजाता है, शरीर कृश होजाता है, तथा मल, मूत्र, और अधोवायुका अवरोध होता है ॥ ४ ॥

पित्तदूषितदूधके लक्षण ।

स्विन्नो भिन्नमलो बालः कामलापित्तुरोगवान् । तृष्णालुरुष्णसर्वाङ्गः पित्तदुष्टं पयः पिबन् ॥ ५ ॥

जो बालक पित्तदूषित दूधका पान करता है, उसको पसीना अधिक आता है, मल पतला और पीला उतरता है, वह कामला और पित्तके रोगोसे पीडित होता है, तृष्णा अधिक लगती है और उसका सम्पूर्ण शरीर उष्ण रहता है ॥ ५ ॥

कफदूषितदूधके लक्षण ।

कफदुष्टं पिबेत्क्षीरं लालालुः श्लेष्मरोगवान् । निद्रादितो जडः शूनः शुक्लाक्षः छर्दनः शिशुः ॥ ६ ॥

जो बालक कफदूषित दूधको पीता है उसके मुख से लार अधिक गिरती है, वह कफके रोगोसे पीडित रहता है, निद्रा अधिक आती है, शरीरमें जडता होती है, शोथ होता है, नेत्र सफेद होते हैं और वमन होती है ॥ ६ ॥

द्वन्द्वजे द्वन्द्वजं रूपं सर्वजे सर्वलक्षणम् ।

दो दोषोंसे दूषित दूधको पान करनेसे दो दोषोंके लक्षण तथा त्रिदोषसे दूषित दूधको पान करनेसे तीनों दोषोंके लक्षण प्रकट होते हैं ।

वालकोंकी अन्तर्गत पीडाजाननेका उपाय ।

**शिशोस्तीव्रामतीव्राश्च रोदनाल्लक्ष-
येद्रुजम् ॥ ७ ॥**

अब जो बालक बोल नहीं सकते उनके अन्तर्गत रोगोंको जाननेका उपाय कहते हैं । बालकोंके रोनेसे अत्यन्त तीव्र या अल्प पीडा जाननी अर्थात् बालक सहजसे रोवे तो क्रम और बहुत जोरसे चिल्लाकर रोवे तो अधिक पीडा जाननी । वह बालक जिस स्थानमें हाथ लगाकर रोवे अथवा उस स्थानमें अन्य किसीके हाथ लगानेसे रो पड़े तो उसके उसी स्थानमें पीडा जाननी ॥ ७ ॥

**क्षुद्ररोगे च कथिते ह्यजगल्ल्यहिपूत-
ने । ज्वराद्या व्याधयः सर्वे महतां
ये पुरेरिताः ॥ ८ ॥ बालदेहेऽपि ते
तद्वद्विज्ञेयाः कुशलैः सदा । अनुबन्धे
यथा व्याधिः प्रतिकुर्वीत कालवित् ९ ॥**

क्षुद्ररोगोंमें जो अजगल्ली और अहिपूतनरोग कहे हैं अथवा बड़े मनुष्योंके जो ज्वरादिकरोग पहले कहे हैं वे सब बालकोंके शरीरमें भी जानने चाहिए बालकोंके जिस रोगमें जैसा अनुबन्धन होसके चतुर वैद्य उसीके अनुसार समयको विचार कर चिकित्सा करे ॥ ८ ॥ ९ ॥

**यथादोषं यथारोगं यथोद्रेकं यथा
बलम् । विभज्यं देशकालादींस्तत्र
युज्येद्विषग्धितम् ॥ १० ॥**

जैसे दोष, जैसे रोग, जैसी पीडा और जैसा शरीरमें बलाबल हो उसीके अनुसार तथा देश, कालको विचारकर वैद्य हितकारक यत्न करे ॥ १० ॥

**भैषज्यं पूर्वमुद्दिष्टं महतां यज्ज्वरादि-
षु । कार्यं तदेव भैषज्यं तेषु दाहा-
दिकं विना ॥ ११ ॥ त एव दूष्या
दोषाश्च ज्वराद्या व्याधयश्च ये । अ-
तस्तदेव भैषज्यं मात्रा तस्य कनी-
यसी ॥ १२ ॥**

ज्वरादि रोगोंमें जो बड़े मनुष्योंके लिये प्रथम औषधियाँ कही हैं वेही सब औषधियाँ बालकोंके लिए भी प्रयोग करनी चाहिये । किन्तु दाह, क्षारकर्म, और शिरावेध आदि कभी न करे । बालकोंके दोष और दूष्य तथा ज्वरादि रोग भी बड़े मनुष्योंके समान होते हैं, इस कारण बालकोंको भी प्रत्येक रोगमें प्रत्येक रोगाधिकारोक्त औषधि देवे । किन्तु उसकी मात्रा कनिष्ठ अर्थात् थोड़ी देवे ॥ ११ ॥ १२ ॥

**एकोऽधिकश्चर्मगतो विकारः कुकूण-
को नाम शिशोः प्रदिष्टः । नन्दिग्रहो
नाम महानिहास्ति विज्ञाय तं वै
शमयेद्यथावत् ॥ १३ ॥**

बालकके एक चर्मगत विकार अधिक होता है, जिसको कुकूणकरोग कहते हैं । और कोई इसको नन्दिग्रह इस नामसे भी कहते हैं । उसको अच्छे-प्रकारसे जानकर यथादोषानुसार चिकित्सा करे १३ ॥

वालरोगोंकी चिकित्सा ।

**विडङ्गफलमात्रन्तु जातमात्रस्य
भेषजम् । मासि मासि प्रयोक्तव्यं
विडङ्गानां प्रवर्द्धनम् ॥ १४ ॥**

बालकको जन्मसे लेकर एक महीने पर्यन्त वाय-विडङ्गकी बराबर औषधकी मात्रा देवे । और फिर क्रमसे प्रत्येक महीनेमें एक एक वायविडङ्गकी बराबर मात्राको बढ़ाता हुआ प्रयोग करे ॥ १४ ॥

**अब्दादूर्ध्वं कुमारस्य दद्यात्कोला-
स्थिमात्रकम् । क्षीरान्नादः शिशोः
कोलमन्नादो बदरोपमम् ॥ १५ ॥**

फिर एक वर्षके पश्चात् बालकको झडवेरके गुठलीकी बराबर औषधकी मात्रा देवे । जबतक केवल दूधको पान करे तबतक ये ही मात्रा रखे और जब दूध और अन्न दोनोंको खानेलगे तो झडवेरकी बराबर मात्रा करदेवे । इसके पश्चात् जब दूधको छोड़ देवे और केवल अन्नको ही खानेलगे तब बेरकी बराबर मात्रा देवे ॥ १५ ॥

१ यदि झलेष्मा घट जानेपर या बालकोंके पसलीके रोगमें वमन तथा विरेचन न दे तो जीव्र ही मृत्युपाशमें चला जाता है, इस कारण कोमल औषधसे वमन विरेचनका निषेध नहीं है ।

क्षीरपस्यौषधं धात्र्याः क्षीरान्नादस्य
चोभयोः । आत्मन्यन्नाशनैर्देयमौ-
षधं भेषजं सदा ॥ १६ ॥

जो बालक दूधको पीते हौं उनकी धायको औषध
देवे, जो बालक दूध और अन्न दोनोका सेवन करते
हो, उनकी धाय और बालक दोनोको औषध देवे
और जो केवल अन्नको खाते हो तो केवल उनकोही
औषध देवे ॥ १६ ॥

यथारोगं स्तनौ लिम्प्य स्वौषधैः पा-
ययेच्छिशुम् । मात्रया लङ्घयेद्धा-
त्रीं शिशोर्नोक्तं विलङ्घनम् ॥ १७ ॥

यथारोगानुसार धाय स्तनोपर औषधिका प्रलेप
करके बालकोंको दूध पिलावे । यदि कदाचित् बाल-
कको लंघन करानेकी आवश्यकता हो तो बालककी
धायको लंघन करावे, बालकको कदापि लंघन नहीं
करावे ॥ १७ ॥

सर्वं निवार्यते बाले स्तन्यं न प्रति-
वार्यते । स्तन्याभावे पयश्छागं
गव्यं वा तद्गुणं पिबेत् ॥ १८ ॥

बालकोके समस्त पदार्थोंको त्यागन करा देवे, किंतु
दूधको कदापि त्याग नहीं करावे । और दूधके अभा-
वमे बकरीका दूध अथवा उसके समान गुणोंवाला
गायका दूध पिलावे ॥ १८ ॥

मृत्पिण्डेनाग्निवर्णेन क्षीरसित्तेन सो-
ष्मणा । स्वेदयेदुत्थितां नाभिं शोथ-
स्तेनोपशाम्यति ॥ १९ ॥

मिट्टीके पिण्डको अग्निमें सतप्त करे जब वह खूब
तपकर अग्निके समान लाल होजाय तब निकाल
कर उसको दूधमें बुझा देवे । उस दूधके द्वारा बाल-
ककी उठी हुई नाभिपर स्वेद देनेसे नाभिशोथ दूर
हो जाता है ॥ १९ ॥

दग्धेन छागशकृता नाभिपाकेऽवचू-
र्णनम् । त्वक्चूर्णैः क्षीरिणां वापि
कुर्याच्चन्दनरेणुना ॥ २० ॥ नाभि-
पाके निशालोध्रप्रियंगुमधुकैः शृत-
म् । तैलमभ्यञ्जने शस्तमेभिर्वाह्यै-
ऽवचूर्णनम् ॥ २१ ॥

बकरीकी भैगनको आग्निमें जलाकर उसको चूर्ण
करके बालकोंकी पकती हुई नाभिके ऊपर लगावे ।
अथवा क्षीरवृक्षोकी छालका चूर्ण, चंदन और रेणुका
चूर्ण इनको मिलाकर नाभि पाकपर लगावे । अथवा
हलदी, लोध, फूलप्रियंगू और मुलैठी इनके कल्कके
द्वारा तेलका पकाकर उस तेलकी मालिस करनेसे
अथवा उपर्युक्त औषधियोंका चूर्ण करके बुरकनेसे
नाभिपाकरोग दूर होता है ॥ २० ॥ २१ ॥

बालो यश्चिराज्जातः स्तन्यं न
गृह्णाति तस्य सैन्धवधात्रीमधुघृतप-
थ्याकल्केनोद्धर्षयेज्जिह्वाम् ।

जो बालक बहुत दिनोका होजाय और दूधको
पान नहीं करे तो सैधानमक, आमले, शहद, घी और
हरड इनके कल्कसे इसकी जिह्वाको घिसे ।

कुष्ठाभयावचात्राहीटंकणं क्षौद्रस-
र्पिषा । सपाठामधुना लीढा स्तन्य-
दोषनिबर्हणाः ॥ २२ ॥

कूठ, हरड, वच, ब्राह्मी और सुहागा इनको एकत्र
पीसकर शहद और घीमें मिलाकर चटावे ।
अथवा पाठेका चूर्ण करके शहदमें मिलाकर चटा-
नेसे बालकोंके दूधके विकार शान्त होजाते हैं ॥ २२ ॥

प्रियंगुस्वर्जिकासिन्धुमधुना लेह-
येच्छिशुम् । क्षीरामयं निहन्त्याशु
विडङ्गेन युतं कृमीन् ॥ २३ ॥

फूलप्रियंगू, सजी, सैधानमक और शहद इन
सबको एकत्र मिलाकर चटानेसे बालकोके दूधका
विकार शीघ्र शान्त होजाता है । और इसी औषधमें
वायविडंगका चूर्ण मिलाकर सेवन करानेसे कृमिरोग
नष्ट होजाता है ॥ २३ ॥

पीतं पीतं वमति यः स्तन्यं तं मधुस-
र्पिषा । द्विवात्कीफलरसं पञ्चको-
लश्च लेहयेत् ॥ २४ ॥

जो बालक दूध पी पीकर डालदेवे उसको शहद
और घीके साथ दोनोप्रकारकी कटेरीका रस और
पंचकोलका चूर्ण मिलाकर चटावे ॥ २४ ॥

शर्कराक्षौद्रसंयुक्ता तित्ता लीढा
ज्वरं जयेत् । लिम्पेन्मुहुर्मुहुर्वालं
तत्कल्केन च वाद्धिमान् ॥ २५ ॥

मिश्री और शहदके साथ कुटकीके चूर्णको मिलाकर चाटनेसे ज्वर दूर होता है। अथवा इसही औषधिके कल्कको वारंवार स्त्रीके स्तनोपर लेप करनेसे दूधका विकार शांत होता है ॥ २५ ॥

भद्रमुस्ताभयानिम्बपटोलामधुकैः

**कृतः । काथः सोष्णस्तु बालानाम-
शेषज्वरनाशनः ॥ २६ ॥**

नागरमोथा, हरड, नीम, पटोलपत्र और मुलैठी इनका काथ बनाकर सुहाता २ पिलानेसे बालकोका सर्वप्रकारका ज्वर दूर होता है ॥ २६ ॥

पलंकषादिधूप ।

**पलंकषावचाकुष्ठं गजचर्मविचर्म
च । निम्बस्य पत्रं माक्षीकं सर्पिर्धु-
क्तन्तु धूपनम् ॥ ज्वरवेगं निहन्त्याशु
बालानान्तु विशेषतः ॥ २७ ॥**

गूगल, वच, क्रूठ, हाथीका चर्म, भेडका चर्म, नीमके पत्ते, शहद और वी इन सबको एकत्र मिलाकर धूप देनेसे ज्वरका वेग गमन होता है। और विशेषकरके बालकोका ज्वर दूर होता है ॥ २७ ॥

सर्पत्वगादिधूप ।

**सर्पत्वक्सर्षपारिष्टपल्लवं तेजनीवचा ।
रसोनहिंज्वजालोमशृङ्गीमरिचमा-
क्षिकैः ॥ धूपः सर्वग्रहघ्नोऽयं कुमा-
राणां ज्वरापहः ॥ २८ ॥**

साँपकी कैचुली, सरसों, नीमके पत्ते, तेजवल, वच, रसोन (लहशुन), हींग, बकरीके रोम, काकडाशिगी, कालीमिरच और शहद इन सबको एकत्र मिलाकर धूप देनेसे बालकोंके सर्वप्रकारकी ग्रहोंकी बाधा और ज्वर दूर होता है ॥ २८ ॥

**मध्वरिष्टदलधेतसर्षपैर्योजितो ज्व-
रम् । बालानां शमयेद्भूपो मृतगोकु-
क्षिरोमजः ॥ २९ ॥**

शहद, नीमके पत्ते और सफेदसरसों इनकी धूप बनाकर देनेसे बालकोंका ज्वर और समस्त पीडा शांत होती है। अथवा मरी हुई गायके पेटके रोमोंकी धूनी देनेसे बालकोकी समस्त ग्रहपीडा शांत होती है ॥ २९ ॥

**भास्रत्वक्काचजम्बूथकषाये पादशे-
षिते । शालिसिद्धां यवागूश्च भुक्त्वा
कुक्ष्यामयं जयेत् ॥ ३० ॥**

आमकी छाल और जामुनकी छाल इनका चतुर्थांश शेष काथ बनावे फिर उस काथमें शालिचावलोकी यवागू बनाकर सेवन करानेसे कुक्षिरोग नष्ट होता है ॥ ३० ॥

**समङ्गाशाल्मलीवेष्टं धातकीपद्मके-
सरैः । पिष्टैरेतैर्यवागूः स्यादतीसा-
रविनाशिनी ॥ ३१ ॥**

मजीठ, सेमलका गोद, धायके फूल और कमल, केशर इनको पीसकर यवागू बनाकर सेवन करनेसे अतिसाररोग नष्ट होता है ॥ ३१ ॥

**विल्वश्च पुष्पाणि च धातकीनां गजं
सलोष्ठं गजपिप्पली च ॥ काथावले-
हौ मधुना विमिश्रौ बाल्येषु योज्या-
वतिसारितेषु ॥ ३२ ॥**

बेलगिरी, धायके फूल, नागकेशर, लोध और गजपीपल इनका काथ या अवलेह बनाकर शहदमें मिलाकर बालकोंके अतिसाररोगमें सेवन करावे ॥ ३२ ॥

**नागरातिविषामुस्ताबालकेन्द्रयवैः
शृतम् । जलं हन्ति कुमारानां
कुक्षिरोगमसंशयम् ॥ ३३ ॥**

साँठ, अर्तास, नागरमोथा, सुगन्धवाला और इन्द्रजौ इनका काथ बनाकर पान करानेसे बालकोका अतिसाररोग दूर होता है ॥ ३३ ॥

**अंकोटमूलधातक्यौ बिल्वपेशीम-
हौषधम् । कथितं शीतलं पेयं कुक्षि-
रोगविनाशनम् ॥ ३४ ॥**

अंकोलकी जड़, धायके फूल, बेलगिरी और साँठ इनका काथ बनाकर शीतल करके पान करानेसे कुक्षिरोग नष्ट होता है ॥ ३४ ॥

**समङ्गाधातकीलोष्ठं शारिवाभिः
शृतं जलम् । विवृद्धेऽपि शिशोर्देयं
मतीसारे समाक्षिकम् ॥ ३५ ॥**

मजीठ, धायके फूल, लोध और शारिवा इनका काथ बनाकर शहद मिलाकर पान करनेसे अत्यन्त बढाहुआ भी अतिसार रोग दूर होता है ॥ ३५ ॥

पिष्टा पटोलमूलश्च शृङ्गवेरं वचाम-
पि । विडङ्गान्यजमोदाश्च पिप्पली-
तण्डुलानि च ॥ ३६ ॥ एतान्यालोढ्य
सर्वाणि मुखतप्तेन वारिणा । आमप्र-
वृत्तेऽतीसारे कुमारं योजयेद्विषकम् ॥ ३७ ॥

परवलकी जड, अदरख, वच, वायविडंग, अज-
मोद और पीपलके चावल इन सबको एकत्र पीसकर
मंदोष्णजलमे अच्छेप्रकारसे आलोडन करके बालकको
सेवन करानेसे अत्यन्त बढाहुआ बालकोंका आमा-
तिसार नष्ट होता है ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

पीडिताम्रास्थिकल्कोत्थस्वरसं म-
धुना सह । कोष्ठभेदी शिशुः शीर्णो
न चिरात्स्वस्थतां व्रजेत् ॥ ३८ ॥

आमकी गुठलीके कल्कका स्वरस निकालकर उसमे
शहद मिलाकर सेवन करनेसे बालकोंका पुराना
अतिसार नष्ट होता है और बालक शीघ्र स्वस्थ होता
है ॥ ३८ ॥

शालिपर्णी पृश्निपर्णी घोटोत्त्वक् क्व-
थितं जलम् । क्षौद्रयुक्तं त्रिदोषघ्नं स-
र्वातीसारनाशनम् ॥ ३९ ॥

शालिपर्णी, पृश्निपर्णी और सुपारीकी छाल इनका
काथ बनाकर शहद मिलाकर सेवन करनेसे त्रिदोषजन्य
और सर्वप्रकारके अतिसार नष्ट होते हैं ॥ ३९ ॥

हरिद्राद्वययष्ट्याह्वसिंहीशक्रयवैः शृ-
तम् । शिशोर्ज्वरातिसारघ्नं श्वास-
कासवमीहरम् ॥ ४० ॥

हलदी, दारुहलदी, मुलैठी, कटेरी और इन्द्रजौ
इनका काथ बनाकर सेवन करनेसे बालकोंका ज्वरा-
तिसार, श्वास, खाँसी और वमन दूर होती है ॥ ४० ॥

धातकीविल्वधान्याकलोधिन्द्रयववा-
लकैः । लेहः क्षौद्रेण बालानां ज्वरा-
तीसारवाननुत् ॥ ४१ ॥

धायके फूल, वेलगिरी, धनियाँ, लोध, इन्द्रजौ और
सुगन्धवाला इनको एकत्र पीसकर शहदके साथ अव-
लेह बनाकर चाटनेसे ज्वरातिसार और वातविकार
नष्ट होता है ॥ ४१ ॥

लोधिन्द्रयवधान्याकधात्रीद्वीवरमुस्त-
कम् । मधुना लेहयेद्दालं ज्वराती-
सारनाशनम् ॥ ४२ ॥

लोध, इन्द्रजौ, धनिया आमले, सुगन्धवाला और
नागरमोथा इनका चूर्ण बनाकर शहदमे मिलाकर
बालकको चटानेसे ज्वरातिसार नष्ट होता है ॥ ४२ ॥

मधुसर्पिर्विडङ्गानि सरलं देवदारु
च । पटोलकुटजारिष्टसतपर्णयवानि-
काः ॥ ज्वरं छर्दिमतीसारं शमयेच्चू-
र्णकं त्विदम् ॥ ४३ ॥

शहद, वी, वायविडंग, धूपसरल, देवदारु, पटो-
लपत्र, कुडकी छाल, नीम, सतोता, और अजवायन
इनका चूर्ण बनाकर सेवन करनेसे ज्वर, वमन और
अतिसार नष्ट होता है ॥ ४३ ॥

कल्कः प्रियंगुकोलास्थिमधुमुस्ता-
जनैः कृतः । क्षौद्रलीढः कुमारस्य
छर्दितृष्णातिसारनुत् ॥ ४४ ॥

फूलप्रियंगू, बेरकी गुठली, मुलैठी, नागरमोथा
और रसौत इनका कल्क बनाकर शहदमे मिलाकर
सेवन करनेसे बालकोंकी वमन, तृषा और अतिसार
दूर होता है ॥ ४४ ॥

बृहती पुष्पमूलत्वक् कृष्णाग्रन्थिकसं-
भवः । तुगाक्षीरियुतः काथः पीतो
हन्ति शिशोर्वमिम् । मूर्च्छां श्वासं
ज्वरं कासमतीसारश्च पीनसम् ॥ ४५ ॥

बड़ी कटेरीके फूल और उसकी जडकी छाल,
पीपल और पीपलामूल इनका काथ बनाकर उसमें
वंशलोचन डालकर सेवन करानेसे बालकोंके वमन,
मूर्च्छा, श्वास, ज्वर, खाँसी अतिसार और पीनस-
रोग दूर हाते हैं ॥ ४५ ॥

धान्यमतिविषाशृङ्गीगजाहाश्लक्ष्ण-
चूर्णितम् । बालानां छर्द्यतीसारं
मधुना हन्ति लेहनात् ॥ ४६ ॥

वनियाँ, अतीस, काकडाशिगी और गजपीपल इनका बारीक चूर्ण करके शहदमें मिलाकर चटानेसे बालकोंकी वमन और अतिसार दूर होता है ॥४६॥

हविरशर्कराक्षौद्रं पतिं तंडुलवारि-
णा । शिशोः सर्वातिसारत्रं तृच्छ-
र्दिज्वरनाशनम् ॥ ४७ ॥

सुगन्धवाला, मिश्री और शहद इन तीनोंको एकत्र मिलाकर चाबलोके जलके साथ पान करनेसे बालकोंके सब प्रकारके अतिसार, तृषा, वमन और ज्वर नष्ट होते हैं ॥ ४७ ॥

श्वेतकमलाकिञ्जल्कं संपिष्टं तंडुलां-
चुना । भस्स्यण्डिमधुसंयुक्तं क्षिप्रं
हन्ति प्रवाहिकाम् ॥ ४८ ॥

सफेद कमलकी केसरको पीस करके राव और शहदमें मिलाकर चाबलोके जलके साथ सेवन करनेसे बालकोंका प्रवाहिकारोग दूर होता है ॥४८॥

विल्वमूलकषायेण लाजाश्चैव सश-
र्कराः । आलोढ्य पाययेद्बालं छर्द्य-
तिसारनाशनम् ॥ ४९ ॥

बलकी जडका काथ बनाकर उसमें खीलोंका चूर्ण और मिश्री मिलाकर बालकोंको पान करानेसे वमन और अतिसार दूर होता है ॥ ४९ ॥

फालिन्यञ्जनमुस्तानां चूर्णं पीतं स-
माक्षिकम् । तृष्णां छर्दिमतीसारं
शिशूनामुद्धतं हरेत् ॥ ५० ॥

फूलभियंगू, रसौत और नागरमोथा इनका चूर्ण बनाकर शहदके साथ सेवन करनेसे बालकोंकी तृषा, वमन और प्रबल अतिसार नष्ट होता है ॥ ५० ॥

आम्रजम्बूप्रवालानि शालुकातिवि-
षाणि च । क्षीरिणाञ्च प्रवालानि य-
ष्टीमधुकमेव च ॥ ५१ ॥ दर्भमूली-
गिराञ्चक्रकथितानि जलेन तु । श-
र्करामधुसंयुक्तं तृष्णाछेदनमुत्तमम् ५२ ॥

आम और जामुनके कोमल पत्ते, भसंडि, अतीस, क्षीरवृक्षाकी कोपल, मुलैठी, कुशाकी जड और

नोनिया इनका काथ बनाकर मिश्री और शहद मिलाकर सेवन करनेसे तृषा दूर होती है ॥ ५१ ॥५२ ॥

दाडिमस्य तु बीजानि जीरकं नाग-
केशरम् । चूर्णः सशर्कराक्षौद्रो ले-
हस्तृष्णाविनाशनः ॥ ५३ ॥

अनारदाना, जीरा और नागकेशर इनके चूर्णको मिश्री और शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे तृषा दूर होती है ॥ ५३ ॥

हिंगुसैन्धवपालाशचूर्णं माक्षिकसं-
युतम् । लीढं निवारयत्याशु शिशू-
नामुद्धतां तृषाम् ॥ ५४ ॥

हींग, सैदानमकै और तेजपात इनका चूर्ण बनाकर शहदमें मिलाकर चाटनेसे बालकोंकी अत्यन्त बढी हुई तृषा तत्काल शांत होती है ॥५४॥

शृङ्गीं समुस्तातिविषां विचूर्ण्य लेहं
विदध्यान्मधुना शिशूनाम् । कास-
ज्वरच्छर्दिभिरर्दितानां समाक्षिकां
चातिविषां तथैकाम् ॥ ५५ ॥

काकडाशिगी, नागरमोथा और अतीस इनका चूर्ण बनाकर शहद मिलाकर चटानेसे बालकोंकी खाँसी, ज्वर और वमन दूर होती है । अथवा केवल अतीसके ही चूर्णको शहदमें मिलाकर चटानेसे उपर्युक्त विकार दूर होते हैं ॥ ५५ ॥

मुस्तकातिविषायासकणाशृङ्गीरजो
लिहन् । मुच्यते मधुना बालः का-
सः पञ्चभिरुत्थितैः ॥ ५६ ॥

नागरमोथा, अतीस, जवासा, पीपल और काकडाशिगी इनका चूर्ण बनाकर शहदमें मिलाकर चाटनेसे बालकोंकी पाँचों प्रकारकी खाँसी दूर होती है ।

क्षीरादस्य शिशोः कासं शुष्कं द-
ष्ट्वा सुदारुणम् । माषयूषं पिबेद्वात्री
पिप्पलीघृतभर्जितम् ॥ ५७ ॥

जो बालक केवल दूधको पीता हो उसके यदि दारुण शुष्क खाँसी हो जाय तो उसकी धायको पीपल और घीसे भुनाहुआ उड़दोंका थूप पीना चाहिये ॥५७ ॥

द्राक्षां पिप्पलिशुण्ठीनां चूर्णं माक्षि-
कसर्पिषा । लीढं निवारयेच्छीघ्रं
कासं पञ्चविधं शिशोः ॥ ५८ ॥

दाख, पीपल और सोंठ इनका चूर्ण बनाकर शहद और घीमें मिलाकर चटानेसे बालकोकी पांच प्रकारकी खाँसी शीघ्र दूर हो जाती है ॥ ५८ ॥

व्याघ्रीकुसुमसञ्जातकेशरैरवलेहिका ।
जग्ध्वापि चिरजं जातं शिशोः
कासं व्यपोहति ॥ ५९ ॥

कटेरीके फूलोंकी केशरको पीसकर शहदमें मिलाकर चटानेसे बालकोंकी बहुत दिनोंकी पुरानी खाँसी दूर होती है ॥ ५९ ॥

धान्यं शर्करया युक्तं तंडुलोदकसंयु-
तम् । पानमेतत्प्रदातव्यं कासश्वा-
सापहं शिशोः ॥ ६० ॥

धानियों और मिश्री इनके चूर्णको चावलोंके जलमें मिलाकर सेवन करानेसे बालकोकी खाँसी, श्वास और ज्वर नष्ट होता है ॥ ६० ॥

गुडोदकञ्च कथितं व्योषसैन्धवसंयु-
तम् । सुखोष्णं पाययेद्बालं कासरौ-
गप्रशान्तये ॥ ६१ ॥

त्रिकुटेका चूर्ण और सैधानमक इनको गुड़के शर्बतमें पकाकर सुहाता सुहाता सेवन करानेसे बालकोंकी खाँसी शांत होती है ॥ ६१ ॥

कुलीरशृङ्गीचूर्णञ्च मूलकस्य फलं
तथा । युक्तोऽयं मधुसर्पिभ्यां लेहः
श्वासापहः शिशोः ॥ ६२ ॥

काकडाशिगी और मूलीके फल इनके चूर्णको शहद और घीमें मिलाकर सेवन करनेसे बालकोका श्वासरोग शमन होता है ॥ ६२ ॥

कृष्णादुरालभाद्राक्षा कर्कटाख्या तु-
गाह्वया । चूर्णिता मधुसर्पिभ्यां ली-
ढा हन्ति शिशोर्गदान् ॥ श्वासं
कासं सतमकं ज्वरं वापि निय-
च्छति ॥ ६३ ॥

पीपल, घमासा, दाख, काकडाशिगी और वंश-
लोचन इन सबको चूर्ण करके शहद और घीमें मिला

कर चाटनेसे बालकोंके श्वास, खाँसी, तमक और ज्वरादिरोग नष्ट होते हैं ॥ ६३ ॥

द्राक्षा दुरालभा चैव पिप्पल्योऽथ
हरीतकी । एतानि कृत्वा चूर्णानि
योजयेन्मधुसर्पिषा ॥ ६४ ॥ त्रिरात्रं
पञ्चरात्रं वा चूर्णमेतन्निषेवितम् ।
कासः श्वासश्च बालानां तमकश्चो-
पशाम्यति ॥ ६५ ॥

दाख, घमासा, पीपल और हरड सबको एकत्र चूर्ण करके शहद और घीमें मिलाकर तीन दिनतक या पाँच दिनतक सेवन करावे तो बालकोकी खाँसी श्वास और तमक रोग शांत होता है ॥ ६४ ॥ ६५ ॥

हिंशुकर्कटशृङ्गी च गैरिकं मधुयष्टि-
का । त्रुटिः क्षौद्रं नागरञ्च हिक्का-
श्वासविनाशनम् ॥ ६६ ॥

हींग, काकडाशिगी, गेरू, मुलैठी, छोटी इलायची, सोठ और शहद इन सब औषधियोंका अवलेह बना कर सेवन करनेसे हिचकी और श्वास दूर होता है ॥ ६६ ॥

चातुर्जातकसंयुक्तो गव्यस्य शकृतो
रसः । लेहोऽयं मधुना देयश्छर्दिप्र-
शमनः परः ॥ ६७ ॥

दालचीनी, इलायची, तेजपात और नागकेशर इनका चूर्ण, गायके गोबरका रस और शहद इन सबका एकत्र अवलेह बनाकर सेवन करनेसे बालकोकी वमन दूर होती है ॥ ६७ ॥

नागरं पिप्पली पाठा भार्ङ्गी च मरि-
चानि च । लेहोऽयं मधुना कास-
श्लेष्मच्छर्दिनिषूदनः ॥ ६८ ॥

सोठ, पीपल, पाठ, भारंगी और कालीमिरच इन सबको एकत्र चूर्ण करके शहदमें मिलाकर चाटनेसे खाँसी, कफ और वमन दूर होती है ॥ ६८ ॥

निशा कृष्णाञ्जनं लाजा शृङ्गीमरि-
चमाक्षिकैः । लेहः शिशोर्विधात-
व्यश्छर्दिकासरुजापहः ॥ ६९ ॥

हलदी, पीपल, रसौत, खीले, काकडाशिगी, काली-
मिरच और शहद इनका अबलेह बनाकर बालकको
चाटनेसे बालकोंकी वमन और खाँसी दूर
होती है ॥ ६९ ॥

**पत्रैर्वदरचाङ्गेरीकाकमाचीकपित्त्यजैः।
शिशो रुग्म्यतीसारनाशनं मूर्द्ध
लेपनम् ॥ ७० ॥**

बेरके पत्ते, चाँगेरीके पत्ते, मकोयके पत्ते और
कैयके पत्ते इनको एकत्र पीसकर गिरपर लेप करनेसे
बालकोंकी पीडा सहित वमन और अतिसार नष्ट होता
है ॥ ७० ॥

**आम्रास्थिलाजसिन्धूतैः लेहक्षौद्रेण
छर्दिनुत् । शिशोर्यष्टयूषणं पितं
बीजपूररसेन वा ॥ ७१ ॥**

आमकी गुठली, खीलें और सधानमक इनको
पीसकर शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे बालकोंकी
वमन दूर होती है। अथवा मुलैठी और पीपलको
पीसकर विजैरेनीबूके रसके साथ सेवन करनेसे
बालकोंकी वमन दूर होती है ॥ ७१ ॥

**जंबूकतिन्दुकानाञ्च पुष्पाणि च
फलानि च । घृतेन मधुना लीढ्वा
मुच्यते हिक्कया शिशुः ॥ ७२ ॥**

जामुन और तेदूके फूल और फल इनको पीसकर
घी और शहदमें मिलाकर चाटनेसे बालकका हिक्का-
रोग शांत होता है ॥ ७२ ॥

**पिप्पलीमधुकानाञ्च चूर्णं समधुश-
र्करम् । रसेन मातुलुङ्गस्य हिक्का-
छर्दिनिवारणम् ॥ ७३ ॥**

पीपल और मुलैठी इनका चूर्ण बनाकर शहद और
मिश्रीके साथ मिलाकर विजैरेनीबूके रसके साथ
सेवन करनेसे हिचकी और वमन दूर होती है ॥ ७३ ॥

**चूर्णं कटुकरोहिण्या मधुना सह यो-
जितम् । हिक्कां प्रशमयेत्क्षिप्रं छर्दिं
चातिचिरोत्थिताम् ॥ ७४ ॥**

कुटकीके चूर्णको शहदमें मिलाकर सेवन करनेसे
हिचकी और बहुत दिनोंकी उत्पन्न हुई वमन शीघ्र
शमन होती है ॥ ७४ ॥

**सुवर्णगैरिकस्यापि चूर्णानि मधुना
सह । लीढ्वा सुखमवाप्नोति क्षिप्रं
हि छर्दितः शिशुः ॥ ७५ ॥**

पीले गेरूके चूर्णको शहदमें मिलाकर सेवन करने
से शीघ्रही बालक वमन रोगसे मुक्त होकर सुखको
प्राप्त होता है ॥ ७५ ॥

विसर्पमहापद्मरोगके लक्षण ।

**विसर्पस्तु शिशोः प्राणनाशनो ब-
स्तिशीर्षजः । पद्मवर्णो महापद्मो रोगो
दोषत्रयोद्भवः ॥ ७६ ॥ शंखाभ्यां
हृदयं याति हृदयाच्च गुदं व्रजेत् ॥ ७७ ॥**

बालकके मस्तक और मूत्राशयमें तीनों दोषोंके
प्रकोपसे प्राणोंका नाश करनेवाला लाल कमलके
समान अत्यन्त लालरगका विसर्परोग उत्पन्न होता
है उसको महापद्मक कहते हैं। मस्तकमें उत्पन्न
हुआ विसर्प कन्फ.टयोंके द्वारा हृदयमें जाता है और
हृदयमेंसे गुदामें जाता है, उसीप्रकार मूत्राशयमें
उत्पन्न हुआ विसर्प गुदामें जाता है, और गुदामेंसे
हृदयमें जाता है और हृदयमेंसे मस्तकमें जाता
है ॥ ७६ ॥ ७७ ॥

उसकी चिकित्सा ।

**पटोलं त्रिफलारिष्टं हरिद्रां त्रिफलां
पिबेत् । क्षतविस्फोटवीसर्पज्वराणां
शान्तये शिशुः ॥ ७८ ॥**

पटोलपत्र, त्रिफला और नीमकी छाल इनका
काथ बनाकर पान करनेसे अथवा हलदी और त्रिफ-
लेका काथ बनाकर पान करनेसे क्षत, विस्फोट,
विसर्प और ज्वर शांत होता है ॥ ७८ ॥

**शारिवोत्पलकहारभद्रश्रीमुस्तचन्द-
नैः । प्रपौण्डरीकमञ्जिष्ठायाष्टीमधुक-
सर्षपैः । कुमारानां प्रशस्तोऽयं लेपो
वीसर्पनाशनः ॥ ७९ ॥**

शारिवा, कमल, कमोदिनी, चंदन, नागरमोथा,
लालचंदन, पुण्डेरिया, मजीठ, मुलैठी और सरसा
इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे बालकोंका विसर्प
रोग नष्ट होता है ॥ ७९ ॥

अभ्यङ्गविषये कार्यं बालानां पद्मकं
घृतम् । विस्फोटरोगे निर्दिष्टं नात्र
कार्या विचारणा ॥ ८० ॥

विस्फोटकरोगमे जो महापद्मक घृत कहा है, वह
इस-विसर्परोगमे भी निस्सन्देह बालकोंके अभ्यङ्गके
लिये प्रयोग करना चाहिये ॥ ८० ॥

न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्वत्थप्लक्षेवतसज-
म्बुजैः । त्वग्भिर्गृह्याह्वमञ्जिष्ठाचन्द-
नोशरिपद्मकैः ॥ ८१ ॥ श्लक्ष्णापिष्टै-
र्यथालाभं शिशोः कार्यं प्रलेपनम् ।
सदाहरागविस्फोटवेदनाव्रणशान्तये
॥ ८२ ॥

बड, गूलर, पीपल, पाखर, वेत और जामनकी
छाल, तथा मुलैठी, मजीठ, चन्दन, खस और पद्माख
इनमेंसे जितनी औषधि मिलसके उनको लेकर
बारीक पीसकर लेप करनेसे बालकोंकी व्रणकी
दाह, लाली, विस्फोटक, वेदना और व्रण शांत
होते हैं ॥ ८१ ॥ ८२ ॥

गृहधूमनिशाकुष्ठसर्जकेन्द्रयवैः शि-
शोः । चन्दनोशरिपद्मैश्च सिध्मापा-
माविचर्चिनुत् ॥ ८३ ॥

घरका धुआँ, हलदी, कूठ, राल और इन्द्रजौ
इतको पीसकर प्रलेप करनेसे बालकोका विसर्परोग
शमत् होता है । अथवा चन्दन, खस और पद्माख
इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे सिध्म, पामा
और विषाचिकारोग नष्ट होता है ॥ ८३ ॥

षचाकुष्ठविडङ्गानां कोष्ठकाथावगा-
हनम् । कच्छूविचर्चिकाकंडूदद्रुभि-
र्मुच्यते शिशुः ॥ ८४ ॥

वष, कूठ और वायविडग इनका काथ बनाकर,
उसमें कोष्ठपर्यंत बालकको स्नान करानेसे बालक
कच्छू, विचर्चिका, कण्डू और दद्रुरोगोंसे मुक्त हो-
जाता है ॥ ८४ ॥

तिलतंडुलयोर्नाडीमूलाभ्यां लेपना-
द्भुतम् । बालानां ब्राह्मणीयष्टी-रोगः
शाम्यति साम्प्रतम् ॥ ८५ ॥

तिल और चावलोंको एकत्र पीसकर नाडीमूल
अर्थात् नाभिपर लेप करनेमें अथवा भारंगी और

मुलैठीको पीसकर लेप करनेसे बालकोका नाडीमूल
रोग दूर होता है ॥ ८५ ॥

कणोषणासिताक्षौद्रसूक्ष्मैला-सैन्धवैः
कृतैः । मूत्रग्रहे प्रदातव्यः शिशूनां
लेह उत्तमः ॥ ८६ ॥

पीपल, मिरच, मिश्री, शहद, छोटी इलायची
और सैधानमक इन सबको एकत्र मिलाकर अवलेह
बनाकर मूत्रावरोधमें सेवन करानेसे बालकोका मूत्र-
रोधरोग दूर होता है ॥ ८६ ॥

घृतेन हिंगुविश्वेला-हिंगुभाङ्गीरजो
लिहन् । आनाहं वातिकं शूलं
हन्यात्तोयेन वा शिशोः ॥ ८७ ॥
पिप्पलीत्रिफलाचूर्णं घृतक्षौद्रपरिप्लु-
तम् । रुदते त्रस्यते वापि लेहं दद्या-
त्सुखावहम् ॥ ८८ ॥

हींग, साठ और इलायची इनका चूर्ण करके घीमें
मिलाकर सेवन करानेसे अथवा हींग और भारंगीका
चूर्ण करके जलके साथ सेवन करानेसे बालकोका
आनाह और वातजनित शूल दूर होता है । पीपल
और त्रिफलेका चूर्ण करके घी और शहदमे मिला-
कर बालकोको चटानेसे बालकोका बहुत रोना और
डरना दूर होता है ॥ ८७ ॥ ८८ ॥

छुच्छुन्दरमलो माषोहरिद्राविल्वप-
त्रकम् । इन्द्रं शिरीषपत्रश्च धूमेनै-
तत्प्रयोजितम् ॥ निहन्ति रोदनं
रात्रौ बालस्याशु न संशयः ॥ ८९ ॥

छच्छुन्दरकी विष्टा, उडद, हलदी, बेलके पत्ते,
इन्द्रजौ और शिरसके पत्ते इन सबकी धूनी देनेसे
बालकोका रात्रिमें रोना बंद होता है ॥ ८९ ॥

अथ कुकूणकके लक्षण ।

कुकूणकः क्षीरदोषाच्छिशूनामेव
वर्तमनि । जायते तेन तत्रेत्रं कंडूरश्च
सवेन्मुहुः ॥ ९० ॥ शिशोः कुकूर्या-
ललाटाक्षिकूटनासावधर्षणम् । न
शक्तोऽर्कप्रभां द्रष्टुं न वर्तन्मीलन-
क्षमः ॥ ९१ ॥

दूधके दोषसे बालकोंके पलकोंमें कुकूणक रोग उत्पन्न होजाता है । जिससे नेत्रोंमें अत्यन्त पीडा, खुजली और स्राव होताहै । इस रोगसे बालक अपने मस्तकको, आँखोंके भागको और नाकके भागको घिसता है । सूर्यकी प्रभाके देखनेको और आँखोंके खोलनेको असमर्थ होता है ॥ ९० ॥ ९१ ॥

कुकूणककी चिकित्सा ।

बद्धगोशकृतोष्णेन कुकूणं स्वेदये-
त्ततः ॥ ९२ ॥

गोबरको अग्निके द्वारा पकाकर फिर एक बखमे वांयकर स्वेद देनेसे बालकोंका कुकूणकरोग शमन होता है ॥ ९२ ॥

मातृस्तन्यकटुस्नेहकाञ्जिकैर्भावितो
जयेत् । स्वेदादीपशिखातप्तो नेत्रा-
मयमलक्तकः ॥ ९३ ॥

लाखको प्रथम माताके दूध, कदवे तेल और कां-
जीमे भावना देकर फिर दीपककी लोथसे तप्त कर
स्वेद देनेसे बालकोंका कुकूणकरोग दूर होता है ॥ ९३ ॥

द्विनिशालोध्रयष्ट्याहरोहिणीनिम्ब-
पल्लवैः । कुकूणके हिता वृत्तिः
पिष्टैस्ताम्ररजोन्वितैः ॥ ९४ ॥

हलदी, दारुहलदी, लोध, मुलैठी, कुटकी, नीमके
पत्ते और ताँबेकी भस्म इन सबको एकत्र पीसकर
बत्ती बनाकर लगावे यह बत्ती कुकूणक रोगमें अत्य-
न्त हितकारी है ॥ ९४ ॥

फलत्रिकं लोध्रपुनर्नवे च सशृङ्गवेरं
वृहतीद्वयञ्च । आलेपनं श्लेष्महरं सु-
खोष्णं कुकूणके कार्य्यमुदाहरन्ति ॥ ९५ ॥

त्रिफला, लोध, पुनर्नवा, अदरख और दोनो कटेरी
इन सबको एकत्र पीसकर सुहाता २ लेप करनेसे
कुकूणकरोग शांत होता है और कफ दूर होता है ॥ ९५ ॥

व्योषं सशृङ्गं समनःशिलालं करञ्ज-
बीजञ्च सुपिष्टमेतत् । कट्वादिता-
नामथ वर्त्मनान्तु श्रेष्ठं शिशूनां नयने
विदध्यात् ॥ ९६ ॥

त्रिकुटा, काकडाशिगी, मैनशिल, हरताल और
करंजके बीज इन सबको एकत्र पानीमें पीसकर
बालकोंके पलकोंपर लगानेसे कुकूणक रोग दूर होता
है । यह औषध बालकोंके नेत्ररोगोंमें अत्यन्त हित-
कारी है ॥ ९६ ॥

स्वरसं वृद्धदारस्य माक्षिकेण सम-
न्वितम् । आश्च्योतनेन बालानां कुकू-
णामयनाशनम् ॥ ९७ ॥

विधारेका स्वरस-ओर शहद इन दोनोंको एकत्र
मिलाकर आश्च्योतन करनेसे बालकोंका कुकूणकरोग
शांत होता है ॥ ९७ ॥

कृमिघ्नालशिलादावीलाक्षार्गैरिक्-
काञ्जिकैः । चूर्णाञ्जनं कुकूणे स्याच्छि-
शूनां पोथकीषु च ॥ ९८ ॥

वायविडंग, हरताल, मैनशिल, दारुहलदी, लाख
और गेरू इन सबको चूर्ण करके कांजीमे पीसकर
अंजन बनावे । यह अंजन बालकोंके पोथकीगत
कुकूणक रोगमें अत्यन्त हितकारी है ॥ ९८ ॥

मनःशिला शङ्खनाभिः पिप्पल्योऽथ
रसाञ्जनम् । वृत्तिः क्षौद्रेण संयुक्ता
बालसर्वाक्षिरोगनुत् ॥ ९९ ॥

मैनशिल, शंखकी नाभि, पीपल और रसात इन
सबको एकत्र पीसकर शहदमें मिलाकर बत्ती बनावे ।
यह बत्ती बालकोंके सब प्रकारके नेत्ररोगोंको दूर
करनेवाली है ॥ ९९ ॥

अथ पारिगर्भिकका निदानं ।

मातुः कुमारो गर्भिण्याः स्तन्यं प्रा-
यः पिबन्नपि । कासात्रिसोदवमथुत्त-
न्द्राकाश्याऽरुचिभ्रमैः ॥ १०० ॥
तुद्यते कोष्ठवृद्ध्या च तमाहुः पा-
रिगर्भिकम् । रोगं परिभवाख्यञ्च
युञ्ज्यात्तत्राग्निदीपकम् ॥ १०१ ॥

प्रायः गर्भिणीमाताका दूध पीनेसे बालको खॉसी,
मदाग्नि, वमन, तन्द्रा, अग्नेम अरुचि, शरीरमें दुर्बलता
और भ्राति होती है तथा पेट बढ़जाता है इसमें सुई
सुभाने सरीखी पीडा होतीहै। इस रोगको पारिगर्भिक

और परिभवभी कहतेहैं । इस रोगमे अग्निदीपन करनेवाले पदार्थोंको प्रयोग करे ॥ १०० ॥ १०१ ॥

पारिगर्भिककी चिकित्सा ।

पारिगर्भिकरोगे तु युज्यते वह्निदीपनम् ॥ १०२ ॥

इस पारिगर्भिक रोगमे अग्निको दीपन करनेवाली चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १०२ ॥

अथ तालुकण्टकरोगका निदान ।

तालुमध्ये कफः कुट्टः कुरुते तालुकण्टकम् । तेन तालुप्रदेशस्य निम्नता सूक्ष्मि जायते ॥ १०३ ॥ तालुपातः स्तनद्वेषः कृच्छ्रात्पानं शकृद्भवम् । वृद्धक्षिकण्ठास्यरुजा श्रीवाद्धर्वरता वमिः ॥ १०४ ॥

तालुके मांसमे कुपित हुआ कफ तालुकण्टक नामक रोगको उत्पन्न करता है । इस रोगसे शिरमें तालुआ नीचेको झुक जाता है अर्थात् लटक आता है और शिरमें गढहा पडजाता है इस कारण बालक माताके दूधको नहीं पीता अथवा बडे कष्टसे थोडा थोडा पीता है, दस्त पतला होता है । तृषा लगती है, आँखोमे, गलेमे तथा मुखमें पीडा होती है, बालक गरदनको ऊपरको घुमाता है और वमन करता है ॥ १०३ ॥ १०४ ॥

तालुपाकरोगकी चिकित्सा ।

तालुपाके यवक्षारं मधुना प्रतिसारणम् ॥ १०५ ॥

तालुपाकरोगमे जवाखारको शहदमें मिलाकर प्रतिसारण करे अर्थात् घिसे ॥ १०५ ॥

हरीतकीवचाकुष्ठं कल्कं माक्षिकसंयुतम् । पीत्वा कुमारसरतन्येन मुच्यते तालुकण्टकात् ॥ १०६ ॥

हरड, वच और कूठ इनका कल्क बनाकर शहदमे मिलाकर माताके दूधके साथ पिलानेसे बालक तालुकण्टकरोगसे मुक्त होता है ॥ १०६ ॥

शारिवातिललोधाणां कषायो मधुकस्थ च । विस्त्राविते उखे शस्तो धावनार्थं शिशोः सदा ॥ १०७ ॥

शारिवा, तिल, लोध और मुलैठी इनका घाघ बनाकर जिन बालकोंके मुखसे स्राव होता हो उनको मुखधावनके लिये प्रयोग कराना चाहिये ॥ १०७ ॥

मुखपाके तु बालानामाम्रसारमयो रजः । गैरिकं क्षौद्रसंयुक्तं भैषजं सरसाञ्जनम् ॥ १०८ ॥

बालकोंके मुखपाकरोगमे आमकी मींग, लोहचूर्ण, गेरु और रसौत इन सबका शहदमे मिलाकर प्रयोग करे ॥ १०८ ॥

अश्वत्थत्वग्दलक्षौद्रैर्मुखपाके प्रलेपनम् । दावीयष्ट्याभयाजाजीपत्रक्षौद्रैस्तथा परम् ॥ १०९ ॥

पोपलकी छाल और पत्तोको शहदमें पीसकर मुखपर प्रलेप करनेसे मुखपाकरोग दूर होता है । अथवा दारुहलदी, मुलैठी, हरड, जीरा और तेजपात इन सबका चूर्ण करके शहदमें मिलाकर लेप करनेसे मुखपाक रोग दूर होता है ॥ १०९ ॥

गुदपाके तु बालानां पिनघ्नीं कारये क्रियाम् । रसाञ्जनं विशेषेण पानालेपनयोर्हितम् ॥ ११० ॥

बालकोंके गुदपाकरोगमे पित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिये । तथा विशेष करके रसौतको पान और लेपनमे प्रयोग करना चाहिये ॥ ११० ॥

शंखयष्ट्यञ्जनैश्चूर्णं शिशूनां गुदपाकनुत् ॥ १११ ॥

शंख, मुलैठी और रसौत इनका चूर्ण करके सेवन करानेसे बालकोका गुदपाक रोग दूर होता है ॥ १११ ॥

गोजिह्वादन्तकालेपः पेयं वा सितचन्दनम् । शंखसौवीरयष्ट्याह्वैलेपो देयोऽहिपूतने ॥ ११२ ॥

गोजिया और दंती इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे अथवा सफेद चंदनको पीसकर पान करनेसे अथवा शंख, सफेद चंदन और मुलैठी इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे आहिपूतन रोग दूर होता है ११२

गुदपाकोत्कटे कुर्याद्रक्तस्त्रावं जलौकसा ॥ ११३ ॥

रक्तगुदपाकरोगमें जौकके द्वारा रक्तवाव कराना चाहिए ॥ ११३ ॥

अथ व्रणपश्चात्तकरोरुके लक्षण ।
दुष्टं मलादिभिर्मातुः स्तन्यं संपिबतः
शिशोः । यदा हि कुपितं पित्तं गुदं
समभिधावति ॥ ११४ ॥ तदा सञ्जा-
यते तत्र जलौकोदरसन्निभः । व्रणः
सदाह आरक्तो ज्वरकासकरः परः
॥ ११५ ॥ करोति पीतकश्चापि वर्च-
स्तंभं भवेदपि । व्रणः पश्चात्तकं नाम
व्याधिः परमदारुणः ॥ ११६ ॥

मातृके वातादिदोषोसे दूषित दूधको पीनेसे बाल-
कके पित्त कुपित होकर गुदमें प्राप्त होता है, उससे
जौकके पेटके समान गुदमें अत्यन्त लाल रंगकी
दाह, ज्वर और खाँसीयुक्त व्रण उत्पन्न होता है ।
उसमें मल पीला और स्तम्भित होता है । इसको
व्रणपश्चात्तकरोरु कहते हैं, यह अत्यन्त दारुण
है ॥ ११४-११६ ॥

व्रणपश्चात्तकी चिकित्सा ।

तत्र सम्पातयेद्युक्त्या जलौकस उदा-
रधीः । क्षीरवृक्षकषायेण किञ्चिदुष्णेन
धावयेत् ॥ ११७ ॥

इस व्रणपश्चात्तकरोरुमें श्रेष्ठवैद्य युक्तिपूर्वक जौक
लगवाकर रुधिर निकलवावे । पश्चात् पंचक्षीरीवृक्षोके
मंदोष्ण काथके द्वारा गुदाको धोवे ॥ ११७ ॥

पिष्ट्वा मधुरकं वापि लेपः पश्चात्तके
हितः । चन्दनं शारिषे द्वे च शंख-
नाभिसमायुतम् ॥ पश्चात्तके प्रलेपो-
यमेषां लेहश्च शस्यते ॥ ११८ ॥

व्रणपश्चात्तकरोरुमें मुलैठीको पीसकर लेप करना
अथवा चन्दन, दोनो शारिषा और शंखनाभि इन
सबको एकत्र पीसकर प्रलेप करना अथवा इनका
अबलेह बनाकर सेवन कराना उपयोगी है ॥ ११८ ॥

असनस्य तु पुष्पाणि श्लक्ष्णचूर्णानि
कारयेत् । गुदिकां कारयेद्द्वयस्तां च

भक्तस्य वारिणा ॥ एनां पश्चात्तके
दद्याद्वाल्लेषु मतिमान्भिषक् ॥ ११९ ॥

विजयसारके फूलोंका वारोक चूर्ण करके भातके
जल (मांड) में गोली बनालेवे । इन गोलियोंको
सेवन करानेसे बालकोंका व्रणपश्चात्तकरोरु शांत होता
है ॥ ११९ ॥

अलम्बुजाजटाकल्कः सर्जचूर्णसम-
न्वितः । बहुधा कटुतैलेन मिश्र-
यित्वा च पाचितम् ॥ सन्दद्यात्तनु-
लीभावं गते विच्छ्रयां प्रलेपनम् ॥ १२० ॥
गोरखमुण्डीकी जडका कल्क बनाकर उसमें रालका
चूर्ण डालकर उसको कढवे तेलमें मिलाकर पकावे ।
जब पकते पकते उसमेंसे तारसे छूटने लगे तब
उतारकर उसका लेप करे । इससे विच्छीरोग दूर
होता है ॥ १२० ॥

अभ्यज्य तिलतैलेन सर्जचूर्णावचू-
णिताम् । विच्छिन्नश्येत्स्थिरैरण्डबी-
जाभ्याश्च प्रलेपनात् ॥ १२१ ॥

तिलके तेलमें रालका चूर्ण मिलाकर मालिश कर-
नेसे अथवा शालिपर्णी और अण्डके बीजोंको एकत्र
पीसकर प्रलेप करनेसे विच्छिन्न रोग दूर होता
है ॥ १२१ ॥

आमलक्याः पलान्यष्टौ गोमूत्रे सप्त
भावयेत् । भावयित्वा तपेत्पश्चाद्दि-
च्छिलिप्ता प्रशाम्यति ॥ १२२ ॥

आठपल आमलोंको गोमूत्रमें सात बार भावना
देकर पश्चात् धूपमें भावना देवे । फिर उसका लेप
करे तो विच्छिन्नरोग शांत होता है ॥ १२२ ॥

मरिचं नवनीताढ्यं शोथघ्नं भक्षये-
च्छिशुः । मुस्ताकूष्माण्डबीजानि भ-
द्रदारुकलिङ्गकान् ॥ पिष्ट्वा तोयेन ले-
पोऽयं शोथघ्नः परमः शिशोः ॥ १२३ ॥

कालीमिरचको नैनी धीमें मिलाकर सेवन कर-
नेसे बालकोंकी सूजन दूर होती है । अथवा नागर-
मोथा, पेंठके बीज, देवदारु और इन्द्रजौ इनको जलमें
पीसकर लेप करनेसे बालकोंकी सूजन दूर होती
है ॥ १२३ ॥

अम्लकाञ्जिकसंपिष्टं शतपुष्पाससै-
न्धवम् । कुष्ठं स्नेहं तदस्युष्णं लोम-
शोद्धर्त्तनं शिशोः ॥ १२४ ॥

सौंफ, सैधानमक और कूठको काँजीमें पीसकर फिर तेलमें मिलाकर गरम करके बालकोंके रोमाँके ऊपर उवटन करे ॥ १२४ ॥

मसूरं गृहपानीये विरसं वाथ पेषि-
तम् । सनिशं वाथवा तद्द्रव्यचूर्णं
शिशोर्हरेत् ॥ १२५ ॥

मसूरको वासी काँजीमें पीसकर लेप करनेसे अथवा हलदी और जौका चूर्ण करके लेप करनेसे बालकोंके खचाके विकार शांत होते हैं ॥ १२५ ॥

अथ शय्यामूत्रचिकित्सा ।

अङ्गुलीग्रहपादो यः स्थाल्याम्भक्तं नि-
वेश्य तत् । कृतमूत्रार्थभूभागे जातु-
भ्यां धरणीं गतः ॥ तण्डुलोत्थाय
यः खादेत्स शय्यामूत्रणं त्यजेत् ॥ १२६ ॥

जो बालक सोते समय शय्यापर मूत्र रहते हैं अथ उनकी चिकित्सा कहते हैं । प्रथम उस बालकको मूत्रनेके स्थानमें घुटनोके द्वारा बैठाल कर उसकी पाँवोंकी अँगुलियोंको हाथसे पकड़वावे । फिर एक थालीमें भात भगकर उसमेंसे चावलोको उठाकर जो बालक खाय तो वह शय्यापर पेशाब करना छोड देता है ॥ १२६ ॥

कृतमूत्रार्थभूभागे मृदं भृष्टा तुषोदके ।
संचूर्ण्य मधुसर्पिभ्यां लीङ्गा तल्प-
विमूत्रणम् ॥ न करोति नरो जातु
भ्रष्टमेनं निरन्तरम् ॥ १२७ ॥

जिस स्थानमें बालक मूत्रता हो उस स्थानकी मिट्टीको लेकर काँजीमें भूनकर चूर्ण करले । उस चूर्णको शहद और घृतमें मिलाकर सेवन करानेसे बालक कदापि शय्यापर नहीं मूत्रता है इस भ्रष्ट योगको कभी करे निरन्तर न करे ॥ १२७ ॥

इन्द्रगोपं ससिद्धचर्थं मधुसर्पिःसमा-
युतम् । पक्कं कच्छपतैले तु पुष्टचायु-
र्वलवर्द्धनम् ॥ १२८ ॥

इन्द्रगोप (वीरवहूटी) और सफेद सरसोंको कछुवेके तेलमें पकाकर शहद और घृतमें मिलाकर सेवन करावे । यह औषधि बालकोंके पुष्टि, आयु और बलको बढानेवाली है ॥ १२८ ॥

उपशीर्षरोगका निदान ।

कपाले योऽनिलो दुष्टो गर्भे तस्य च
जायते । सवर्णो निर्व्यथः शोथस्तं
विद्यादुपशीर्षकम् ॥ यथा दोषोद्भवं
विद्यात्पिडिकावर्बुदविद्रधिम् ॥ १२९ ॥

बालकोंके कपालमें वायुके दुष्ट होजानेसे उसके भीतर उसीके रंगकी पीड़ाहित जो सूजन होती है उसको उपशीर्षरोग कहते हैं । इसमें यथादोषानुसार पिडिका, अर्बुद और विद्रधि आदि निश्चय करे ॥ १२९ ॥

उपशीर्षरोगकी चिकित्सा ।

उपशीर्षं नावनं शस्तं वातव्याधि-
चिकित्सितम् । पक्के विद्रधिवत्तस्मि-
न्क्रमं कुर्व्याद्यथोदितम् ॥ १३० ॥

उपशीर्षरोगमें नस्य प्रयोग करे और वातव्याधिके समान चिकित्सा करे और उसके पकनेपर यथादोषानुसार विद्रधिके समान चिकित्सा करे १३०

व्योषशिवोद्गारजनीकल्कं वा पीत-
मथ पयसा । उल्बं निःशेषं कुरुते
पटुतां बालस्य चात्यन्तम् ॥ १३१ ॥

त्रिकुटा, हरड, वच और हलदी इनका कल्क बनाकर दूधके साथ पान करनेसे जरायुका दोष शमन होता है और बालकको अत्यन्त पटुता उत्पन्न होती है ॥ १३१ ॥

स्रोतस्सु कफरुद्धेषु शिशोः शीता-
द्विरेचनात् । ज्वरेऽरुचौ प्रतिश्या-
ये कासश्चसनसम्भवे ॥ १३२ ॥ प्रशु-
ष्याति यदा बालः स्वस्थः स्निग्ध-
मुखेक्षणः । पञ्चकोलकतित्तानां चूर्णं
मधुघृतं युतम् ॥ तदा तस्य प्रयो-
क्तव्यं ज्वरारुन्धादिशान्तये ॥ १३३ ॥

बालकोके ज्वर, अरुचि, प्रतिश्याय, खॉसी और श्वासादि रोगोंमें शीतल आदि औषधियोंके द्वारा विरेचन देनेसे शरीरके स्रोतोंमें कफके रुक जानेपर बालक सूखने लगता है । परन्तु वह ऊपरसे स्वस्थ दिखता है और उसके मुख तथा नेत्र स्निग्ध होते हैं। ऐसी अवस्थामें बालकको पीपल, पीपलामूल, चव्य, चोता, सोठ और कुदकी इनका चूर्ण बनाकर शहद और घृतमें मिलाकर सेवन करावे इससे ज्वर और अरुचि आदि रोग शांत होते हैं ॥ १३२ ॥ १३३ ॥

**सैन्धवं व्योषशार्ङ्गघृतापाठागिरिकर-
ञ्जकान् । शुष्यते मधुसर्पिभ्यां गुडू-
च्यादिश्च योजयेत् ॥ १३४ ॥**

सैधानसक, त्रिकुटा, बड़ीकरंज, पाठ और पर्वतीय करंज इनको एकत्र पीसकर शहद और घीमें मिलाकर सेवन करनेसे अथवा गुडूच्यादि वर्गकी औषधियोंको सेवन करनेसे बालकोका सूखना दूर होता है ॥ १३४ ॥

**यदा तु दुर्बलो बालः क्षुधया पीडि-
तोऽग्निवान् । विदारीकन्दगोधूमय-
वचूर्णं घृतप्लुतम् । पाययेदनु च क्षीरं
शृतं समधुशर्करम् ॥ १३५ ॥**

जो बालक दुर्बल हो और उसकी जठराग्नि अत्यंत बढ गई हो तथा जो निरंतर क्षुधासे पीडित हो तो उसको विदारीकंद, गेहूँ और जौका चून इन सबको एकत्र घृतमें मिलाकर सेवन करावे और ऊपरसे आँटायें हुए दूधमें शहद, खॉड और घी मिलाकर पान करावे ॥ १३५ ॥

दन्तरोगका निदान ।

**दन्तमूलाश्रितो वायुर्दन्तवेष्टान्वि-
शोषयन् । यदा शिशोः प्रकुपितो
नोत्तिष्ठन्ति तदा द्विजाः ॥ १३६ ॥**

जब बालकोके दाँतोंकी जड़में स्थित वायु दन्त-वेष्टों (मसूढों) को सुखाकर कुपित होती है तब बालकोके दाँत नहीं जमते हैं ॥ १३६ ॥

दन्तरोगकी चिकित्सा ।

**दन्तपालिन्तु मधुना चूर्णेन प्रतिसा-
रयेत् । धानकोष्ठुप्पपिप्पल्योर्धात्री-
फलरसेन वा ॥ १३७ ॥**

दंतपालीको चूनेमें शहद मिलाकर उससे घिसे । अथवा धायके फूल, पीपल और आमलोंका रस इनको एकत्र मिलाकर लगावे ॥ १३७ ॥

**लावतिरिवल्लूररजःपुष्परसप्लुतम् ।
द्रुतं करोति बालानां दन्तं केसरव-
न्मुखम् ॥ १३८ ॥**

लवा और तांतरके मासके चूर्णको धायफूलोंके रसमें भावना देकर सेवन करनेसे बालकोके तत्काल दाँत उत्पन्न होजाते हैं और मुख केसरके समान होजाता है ॥ १३८ ॥

अथाकालदन्तोत्पातके लक्षण ।

**दन्तोत्पातभवे रोगे न बालमतिपी-
डयेत् । पाते दन्ते हि शाम्यन्ति
स्वयं तन्दतका गदाः ॥ १३९ ॥**

दाँत निकलनेके समय होनेवाले रोगोंमें बालकोको अत्यन्त पीडित नहीं करे अर्थात् विशेष यत्न नहीं करे, क्योंकि दाँतोंके निकल आनेपर वे सम्पूर्णरोग अपने आप शांत होजाते हैं ॥ १३९ ॥

**सद्यो जातस्य दृश्येत यस्य दन्तस्य
सम्भवः । तं बालं राक्षसं विद्यात्सर्व-
लोकभयावहम् ॥ अचिरेणैव कालेन
माता तस्य विनश्यति ॥ १४० ॥**

जिस तत्कालके उत्पन्नहुए बालकके दाँत देखे अर्थात् जो बालक दाँतोंसाहित जन्मे उस बालकको राक्षसके समान जानना चाहिए । वह सम्पूर्ण मनुष्योंके लिए भयकर होता है । और उस बालककी माता थोड़े ही समयमें मरजाती है ॥ १४० ॥

**एकमासे द्विमासे च त्रिमासे दन्त-
दर्शनात् । पिता तस्य विनश्येत
वैवस्वतसमो हि सः ॥ १४१ ॥**

जिस बालकके जन्मसे एक महीने पश्चात् अथवा दो महीनेके पश्चात् या तीन महीनेमें दाँत निकलें तो उसका पिता मरजाता है । उस बालकको समके समान जानना ॥ १४१ ॥

**चतुर्थे भ्रातरं हन्याद्यदा दंतस्य दर्श-
नात् । मासे तु पञ्चमे हन्यान्मातरं
भ्रातरं तथा ॥ १४२ ॥**

जिसके चाँधे महीनेमे दाँत निकले तो उस बालकका भ्राता मरजाता है । जिसके पाँचवे महीनेमे दाँत निकले उसकी माता और भ्राता दोनो मरजाते है ॥ १४२ ॥

षष्ठे मासे तु दन्तस्य दर्शनं हि यदा भवेत् । मातापित्रोर्धनश्चैव नष्टं भवति निश्चितम् ॥ १४३ ॥

जिस बालकके छठे महीनेमे दाँत निकले उसके माता पिताका ओर धनका नाश होता है ॥ १४३ ॥

सप्तमे यदि दृश्येत दन्तानां हि समुद्भवः । शिशोर्वा तपते चैव दासी दासान्गुरुस्तथा ॥ १४४ ॥

जो बालकके सातवे महीनेमे दाँत निकले तो उसके दासी दास ओर गुरुजन आदि सब आपात्ति भोगते है ॥ १४४ ॥

अष्टमे नवमे चैव दशमैकादशे तथा । द्वादशे त्रयोदशे चैव तथा चैव चतुर्दशे ॥ दन्ताश्चैव हि दृश्यन्ते तदा दन्ताः शुभावहाः ॥ १४५ ॥

जिस बालकके आठवें, नवमें, दशवें, ग्यारहवें, बारहवें, तेरहवें और चौदहवें महीनेमे दाँत निकलते है तो वे दाँत शुभ होते हैं ॥ १४५ ॥

अथ प्रायश्चित्त ।

सदन्तो जायते बालो जातेऽप्यस्य द्विजोद्भवः । कुर्वन्ति तस्मिन्नुत्पाते शान्तिं च द्विजजातयः ॥ १४६ ॥

जो बालक दाँत सहित उत्पन्न हो अथवा जिसके उत्पन्न होते ही दाँत निकल आवे तो उसके अनेक उत्पात होते है । उन उत्पातोंकी शांतिके लिये ब्राह्मण आदिके द्वारा शांति करावे ॥ १४६ ॥

शिशुं सदक्षिणं दद्यान्नैगमेषश्च पूजयेत् । वत्सस्य मधुलाजानां प्राङ्मुखं दाधिदीपयोः ॥ चुम्बेत्कुमारं त्रीन्वारान्प्रायश्चित्तमिदं स्मृतम् ॥ १४७ ॥
नौकामारोहयेद्दालं सह धात्र्या

गजोत्तमम् । भोजयेद्भोजनं धात्रीं सर्पिषा पयसाऽथवा ॥ १४८ ॥

दक्षिणाके साथ बालकको दे देवे और नगमपत्रकी पूजा करे। फिर पूर्वकी ओर मुँह करके दही और दीपकको रख कर बालकको शहद और खोलें सेवन करावे तथा तीन बार बालकको चूँवे । इस प्रकार प्रायश्चित्तविधान कहा है । बालकको धायके साथ नौका (नाव) मे अथवा हाथीपर चढावे और धायको दूधके साथ अथवा घृतके साथ भोजन करावे ॥ १४७ ॥ १४८ ॥

अथ दन्तदंष्ट्रके लक्षण ।

रूक्षाशिनो हि बालस्य चालयत्यनिलः शिराः । हन्वाः शय्याप्रसुप्तस्य दन्तैः शब्दं करोत्यतः ॥ १४९ ॥

रूखे भोजन करनेवाले बालककी ठोडीकी शिराओमे वायु प्राप्त होकर शय्यापर सोते समय बालक दाँतोंको चवाया करता है ॥ १४९ ॥

दन्तदंष्ट्रकी चिकित्सा ।

कर्कटशाकविपकं क्षीरेण चरणतल्लेपनादचिरात् । दन्तदंष्ट्रागतशब्दं शमयति बहुधैव दृष्टमिदम् ॥ १५० ॥

काकडाशिगी और सागोनके द्वारा दूधको पकाकर उस दूधका पाँवोंके तलुवेमे लेप करनेसे सोते समय बालकोंका दाँतोंका चवाना बहुत शीघ्र दूर होता है यह अनेक बारका अनुभव किया हुआ है ॥ १५० ॥

अन्यरोग ।

योषिद्भ्रूयो वत्सरादूर्ध्वं बालो नो याति पोषताम् । मन्दाग्निर्बहुविण्मूत्रो दृश्यमानास्थिपञ्जरः ॥ १५१ ॥

शुष्कः स्थिरमहद्रोगः पूर्वन्तं मृदु शोध्य च । कृष्णास्थिहृत्पयो मांसं वस्तौ स्नेहं च योजयेत् ॥ १५२ ॥

यदि एक वर्षका बालक होनेपरभी स्त्रियोंके द्वारा पुष्टिको प्राप्त नहीं हो तथा मदाग्नि, मल और मूत्रकी अधिक प्रवृत्ति हो एव सम्पूर्ण शरीर सूखजाय केवल अस्थिपञ्जर मात्र देखे तो वह स्थिर सूखेका महाभयंकर रोग होता है । उसमे बालकको प्रथम मृदु शोधन कराकर पश्चात् वस्तिके द्वारा पीपल

और हडसंहारीके चूर्ण तथा दूध और मांसको प्रयोग करे और स्नेहपान करावे ॥ १५१ ॥ १५२ ॥

अश्वगन्धाद्यघृत ।

पादकल्कयश्वगन्धायाः क्षीरे दश-
गुणे पचेत् । घृतं पेयं कुमारानां पुष्टि-
कृद्बलवर्द्धनम् ॥ १५३ ॥

असगंधके ८ तोले कल्कके साथ दशगुणे दूधमें घृतको पकावे । यह घृत बालकोंको पिलानेसे पुष्टि और बलकी वृद्धि होती है ॥ १५३ ॥

रास्नाद्यघृत ।

रास्नाश्वगन्धाकाकोलीपयस्यामुद्ग-
पर्णिभिः । विडङ्गजीरकाभ्याश्च घृतं
त्वृषभकेण च ॥ शिशूत्तमाङ्गनिर्यूहे
सिद्धं पुष्टिविबर्द्धनम् ॥ १५४ ॥

रायसन, असगंध, काकोली, क्षीरकाकोली, मुग-
वन, वायविडंग, जीरा, कालाजीरा और ऋषभक
इनके काथमें घृतको पकावे । इस घृतको बालकोंके
शिरपर प्रयोग करनेसे पुष्टि और वृद्धि होती है १५४

गौर्याद्यघृत ।

गौरियष्टीवचालोथ्रं पण्डितं राजादनं
सिता । चन्दनं पद्मकं लाक्षा सपद्मं
कुमुदोत्पलम् ॥ १५५ ॥ जीवकर्षभ-
कौ मेदा काकोलीशारिवाद्ययम् ।
पञ्चत्वग्दशमूलाम्बुक्षीरे प्रस्थं घृतं
पचेत् ॥ १५६ ॥ योजितं पित्तवीसर्पे
मुखपाके ग्रहात्तिषु । शस्तं गौर्यादि-
कं नाम बालानां सर्वरोगनुत् ॥ १५७ ॥

हलदी, सुलैठी, वच, लोध्र, शालिपर्णी, पृश्नि-
पर्णी, खिरनी, मिश्री, चन्दन, पद्माश्व, लाख, कमल,
ऋषोदिनी, नीलकुमुद, जीवक, ऋषभक, मेदा,
काकोली, दोनो शारिवा, पञ्चक्षीरीवृक्षोकी छाल
और दशमूलकी औषधियां इन सबको एक २ कर्ष
लेकर द्रोण जलमें काथ बनाकर उसमें और दूधमें
एक प्रस्थ घृतको पकावे । यह गौर्याद्यनामक
घृत-पित्तरोग, विसर्प रोग, मुतापाक और ग्रहकी
पण्डामे हितकारी तथा सर्वप्रकारके बालकोंके रोगोंको
नष्ट करनेवाला है ॥ १५५-१५७ ॥

लाक्षाद्यघृत ।

लाक्षाकुष्ठविडङ्गानि सरलं रजनी-
द्रयम् । सूक्ष्मैलापद्मकं लोध्रं पद्मकं
नागकेशरम् ॥ १५८ ॥ दधित्थतुत्थ-
शैरीषशैरेयोदालपत्रकम् । घृतप्रस्थं
पचेदेतैर्यावत्पाकश्च गच्छति ॥ १५९ ॥
कीटाखुसर्पदष्टेषु स्फोटेषु विविधेषु
च । विसर्पेषु कुमारानां लूतामूत्र-
कृतेषु च ॥ गण्डमालासु नारीषु
सर्पिरेतद्यथाऽमृतम् ॥ १६० ॥

लाख, कूठ, वायविडंग, धूपसरल, हलदी, वारुह-
लदी, छोटीइलायची, पद्माश्व, लोध्र, कमल, नाग-
केशर, कैथ, तूतिया, गिरस, नीली कटसरैया और
लिसोडेके पत्ते इनके काथके द्वारा घृतको पकावे ।
जब उत्तम प्रकारसे पककर तैयार होजावे तब उतार
लेव । यह घृत-कृमि, आखु और सर्पविषमे, अनेक
प्रकारके स्फोटक, विसर्परोग, बालकोंके रोग, लूता,
मूत्ररोध, गण्डमाला और स्त्रियोंके रोगोंमें अमृतके
समान है ॥ १५८ ॥ १५९ ॥ १६० ॥

चांगेरीघृत ।

अजाक्षीरसमं सर्पिश्चांगेरीस्वरसा-
ठके । समङ्गाधातकीलोथ्रं कपित्थो-
त्पलसैन्धवैः ॥ १६१ ॥ सव्योषकुष्ठ-
विल्वाब्दैः पिष्टैः प्रस्थोन्मितं घृतम् ।
पचेद्ग्रहण्यतिसारान्हन्ति पथ्यभुजः
शिशोः ॥ १६२ ॥

बकर्रीका दूध १ प्रस्थ, घृत १ प्रस्थ, चांगेरी(नो-
निया)का स्वरस १ आठक परिमाण तथा कल्कके
लिये मजीठ, धायके फूल, लोध्र, कैथ, कमल, सैधा-
नमक, त्रिकुटा, कूठ, बेलगिरी और नागरमोथा इन
प्रत्येकको दो २ तोले लेकर कल्क बनाकर सबको
एकत्र करके घृतको पकावे यह घृत-बालकोंकी संघ-
हणी और अतिसारको दूर करता है । किन्तु इसपर
बालकोंको पथ्यसे रहना योग्य है ॥ १६१ ॥ १६२ ॥

पाठाद्यघृत ।

पाठामतिविषां कुष्ठं सरलं देवदारु-
च । द्विपिप्पल्याौ तेजवती चित्रकं

विश्वभेषजम् ॥ १६३ ॥ उभे हरिद्रे
सरलं फलानि कुटजस्य च । गण्डी-
रिमजमोदाश्च विडङ्गं कटुरोहिणी-
म् ॥ १६४ ॥ वचां सर्पसुगन्धाश्च
श्रेयसीं मरिचानि च । मालुङ्गस्य
मूलानि दाडिमस्य रसेन तु ॥ १६५ ॥
श्लक्ष्णपिष्टानि संयोज्य क्षीरे सर्पि-
र्विपाचयेत् । मृद्वाग्निर्धुः कुमारः स्या-
त्कृमिकोष्ठश्च यो भवेत् ॥ १६६ ॥
अरोचकगृहीतश्च तथा यश्चातिसा-
र्यते । एतत्सर्पिः प्रयोक्तव्यं कुमारो
बलवान् भवेत् ॥ १६७ ॥ पाण्डुरो-
गाच्च गुल्माच्च तथा श्वयथुसञ्चयात् ।
कृशभावाच्च दैन्याच्च स्वरभेदात्तथैव
च ॥ प्रज्वालावर्णभेदाच्च क्षिप्रमेव
विमुच्यते ॥ १६८ ॥

पाठ, अतीस, कूठ, धूपसरल, देवदारु, पीपल, गज-
पीपल, तेजवल, चीता, सोंठ, हलदी, वारुहलदी,
सुगन्धतृण, विजौरा, इन्द्रजौ, थूहर, अजमोद, वाय-
विडग, कुटकी, वच, नागगन्धा अथवा नागजिह्वा,
वा नागदौन, हरड, कालीमिरच और विजौरैनीचूकी
जड इन सबको एकत्र अनारके रससे वारीक पीसकर
इस कलकके द्वारा दूधमें घृतको पकावे। यह घृत जिन
वालकोकी अग्नि मन्द हो, जिनके कोठेमें कृमि हो
गये हों, जो अरुचि, अतीसारसे पीडित हों तथा
पांडुरोग, गुल्म, सूजन, कृशता, दीनता और स्वरभेद
ने दुःखित हों ऐसे वालकोको यह घृत सदैव प्रयोग
कराना चाहिये । इस घृतको सेवन करनेसे वालकों-
की भस्माग्नि और वर्णभेद शीघ्र दूर होजाता है
तथा बलकी वृद्धि होती है ॥ १६३-१६८ ॥

सोमघृत ।

सिद्धार्थकवचात्राह्नीशङ्खपुष्पीपुनर्नवाः।
पयस्यामधुयष्ट्याहकटुतैलफलत्रयम्
॥ १६९ ॥ शारिवे रजनीपाठा-
भृङ्गदारुसुवर्चलाः । मञ्जिष्ठात्रिफ-
लाश्यामावृषपुष्पं सर्गौरिकम् ॥ १७० ॥
एभिः पक्ता घृतप्रस्थं सम्यङ्मन्त्रा-

भिमन्त्रितम् । द्विमासं गर्भिणी ना-
री षण्मासानुपयोजयेत् ॥ १७१ ॥
सर्वज्ञं जनयेत्पुत्रं सर्वामयविवर्जित-
म् । न ग्रहैरभिभूयेत् बलवर्णान्वितः
सुखी ॥ १७२ ॥ अस्य प्रयोगात्कुक्षिस्यः
स्फुटवाग्भ्याहरत्यपि । योनिदुष्टाश्च
या नार्यः शुक्रदुष्टाश्च ये नराः ॥ १७३ ॥
वन्ध्यापि लभते पुत्रं शूरं पण्डित-
मानिनम् । खञ्जगद्गदमूकत्वं पाना-
देवापकर्षति ॥ १७४ ॥ सप्तरात्रि-
प्रयोगेण नरः श्रुतिधरो भवेत् ।
नाग्निर्दहति तद्वेश्म न वज्रमपहन्ति
च ॥ न तत्र म्रियते बालो यत्रास्ते
सोमसंज्ञकः । फलत्रयं चात्र काश्म-
द्राक्षापरुषकाणि वै ॥ १७५ ॥

सफेद सरसो, वच, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, पुनर्नवा,
काकोली, मुलैठी, कडवा तेल, दाख, फालसे, कुम्भेर,
दोनों शारिवा, हलदी, पाठ, भांगरा, देवदारु, हुल-
हुल, मजीठ, त्रिफला, निसोत, अड्डसेके फूल और
गेरू इन सब औषधियोंके द्वारा अच्छे प्रकारसे एक
प्रस्थ घृतको पकावे । फिर मन्त्रोसे अभिमन्त्रित
करके गर्भवतीस्त्रीको दूसरे महीनेसे छठे महीनेतक
सेवन करावे । इससे स्त्रियाँ सर्वज्ञ, आरोग्य और ब्रह्म
वाधासे रहित, सुन्दर, बलवान् और सुखी पुत्रको
उत्पन्न करती है । इसके प्रयोगसे कुक्षिमें स्थित
वालक भी स्फुटवचन बोलने लगता है । जो स्त्रियाँ
दुष्टयोनिवाली है या जिन पुरुषोंका शुक्र दूषित है
उनके लिये यह घृत अत्यन्त हितकारी है। इस घृतके
प्रसादसे वन्ध्यास्त्रीभी शूर, पंडित और मानी पुत्रके
उत्पन्न करती है । तथा इसको केवल-पान करनेसेही
खंजता गद्गता और मूकता नष्ट होजाती है ।
इसको सात दिनतक सेवन करनेसे मनुष्य अनेक
शास्त्रोको धारण करनेवाला होता है । जिस घरमें
यह सोमसंज्ञक नाम घृत रहता है उसमें न कभी
अग्नि लगती है और न कभी वज्र गिरता है और न
उसमें वालक मरते हैं । फलत्रय शब्दसे यहां दाख,
कुम्भेर और परुषक ये तीन फल लेने चाहिये
॥ १६९-१७५ ॥

अष्टमङ्गलघृत ।

वचा कुष्ठं तथा ब्राह्मी सिद्धार्थकम-
थापि वा । शारिवासैन्धवं चैव पि-
प्पलीघृतमष्टमम् ॥ १७६ ॥ मेध्यं
घृतमिदं सिद्धं पातव्यं मासमेव च ।
दृढश्रुतिः क्षिप्रमेधाः कुमारो बुद्धि-
मान्भवेत् ॥ १७७ ॥ न पिशाचान् न
रक्षांसि न दैत्या न च मानवाः । वा-
धन्ते च कुमाराणां पिबतामष्टमंग-
लम् ॥ १७८ ॥

वच, कूठ, ब्राह्मी, सफेद सरसों, शारिवा, सैधा-
नमक, पीपल और उत्तम गायका घी, इन औषधि-
योंके द्वारा यथाविधिसे घृतको पकावे । इस अष्ट-
मंगल घृतको एक महानैतिक सेवन करनेसे बालकोके
मेधा, स्मरणशक्ति, धारणाशक्ति और अत्यन्त बुद्धि-
की वृद्धि होती है । तथा पिशाच, राक्षस, दैत्य और
पितृग्रह इन सबकी धावा दूर होती है ॥ १७६ ॥
॥ १७७ ॥ १७८ ॥

कुमारकल्याणघृत ।

शङ्खपुष्पविचाब्राह्मी कुष्ठं त्रिफलया
सह । द्राक्षा सशर्करां शुण्ठी जीवन्ती
जीवर्कं बला ॥ १७९ ॥ शटीदुराल-
भाबिल्वं दाडिमं सुरसा तथा । मुस्तं
पुष्करमूलञ्च सूक्ष्मैला गजपिप्पली ॥
॥ १८० ॥ एषां कर्षसमैर्भागैर्घृतप्रस्थं
विपाचयेत् । कषाये कण्टकार्याश्च
क्षीरं तस्माच्चतुर्गुणम् ॥ १८१ ॥ एत-
त्कुमारकल्याणं घृतरत्नं सुखप्रदम् ।
बलवर्णकरं धन्यं कोष्ठाग्नैरतिवर्द्धनम्
॥ १८२ ॥ छायासर्वप्रहाऽलक्ष्मीकृ-
मिदन्तगदापहम् । सर्वबालामग्रहरं
दन्तोद्भिदे विशेषतः ॥ १८३ ॥ व-
सामज्जाथवा तैलमभिरेव विपाचि-
तम् । पूर्वार्थकृद्यथा शाम्यदेशका-
लोपमादितम् ॥ १८४ ॥

शंखाहुली, वच, ब्राह्मी कूठ, त्रिफला, दाख,
खांडे, सोठ, जीवन्ती, जीवक, खिरैटी, कचूर,
धमासा, वेलगिरी, अनारदाना, तुलसी, नागरमोथा,
पोहकरमूल, छोटी इलायची और गजपीपल इन
प्रत्येक औषधियोंका कल्क एक एक तोला लेकर
उसके साथ चौगुने कटेरीके स्वरस और दूधमें एक
प्रस्थ घृतको पकावे । यह कुमारकल्याणघृतरत्न,
सुखको देनेवाला, बलवर्णजनक और कोठेकी अग्निको
अत्यन्त बढ़ानेवाला है । तथा छाया, सर्वप्रकारके
ग्रहोंकी बाधा, अलक्ष्मी, कृमिदन्तरोग, सर्वप्रकारके
बालरोग और विशेष करके दांतोंके रोगोंको दूर
करता है । यथादोष तथा देश और कालके अनुसार
वसा, मज्जा और तैलको भी इन औषधियोंके द्वारा
पकावे । यह भी पूर्व जो गुण घृतके कहे हैं उनको
करते हैं ॥ १७९ ॥ १८४ ॥

खदिराद्यघृत ।

खदिरार्जुनतालीसकुष्ठस्यन्दनजे रसै ।
सक्षीरं साधितं सर्पिः श्वयथुश्च
नियच्छति ॥ १८५ ॥

खैर, अर्जुन, तालीशपत्र, कूठ और तिनिकाके
स्वरसमें दूधके द्वारा घृतको पकावे । यह घृत-सूज-
नको दूर करता है ॥ १८५ ॥

अथ अवस्थाविशेषसे बालकोंको
घृतपान ।

सिद्धार्थकादिघृत ।

वराहारस्य सिद्धार्थकवचापयस्या-
ब्राह्म्यपामार्गशतावरीशारिवापिप्प-
लीकुष्ठसैन्धवैः सिद्धं सर्पिः पातुं
प्रयच्छति ।

जो बालक केवल दूधको पीते हैं उनको सरसों,
वच, काकोली, ब्राह्मी, चिरचिटा, शतावर, शारिवा,
पीपल, कूठ और सैधानमक इनके कल्कके द्वारा
घृत पकाकर पान करावे ।

मधुक ।

क्षीरान्नादस्य मधुकवचात्रिफला
सिद्धम् ।

१ जहाँ गर्कग शुद्ध हो नहीं पाए ही लेनी योग्य है। सब
योगोंमें जहाँ सिताशब्द हो तहाँ मिश्री लेनी चाहिये यह
निश्चय किया हुआ है ।

जो बालक दूध और अन्न दोनोंको सेवन करते हैं उनको मुलैठी, वच और त्रिफला इनके कल्कके द्वारा घृतको पकाकर वह घृत सेवन करावे ॥

द्विपंचमूलाद्य घृत ।

अन्नादस्य द्विपञ्चमूलीक्षीरतगरभद्रदारुमरिचविडङ्गमधुकद्राक्षासिद्धम् । तेन बालस्यारोग्यबलमेधायुषि भवन्ति ।

जो बालक केवल अन्नको खाते हैं उनको दग्मूल, क्षीरतगर, देवदारु, कालीमिरच, वायविडंग, मुलैठी और दाख इनके कल्कके द्वारा घृतको पकाकर सेवन करावे । इस प्रकार घृतको पान करानेसे बालकोंके आरोग्य, बल, मेधा और आयुकी वृद्धि होती है ।

वचाद्यघृत ।

वचाद्विवृहतीपाठाकटुकातिविषाघनैः । मधुरैश्च घृतं सिद्धं शस्तं दशनजन्मनि ॥ १८६ ॥

वच, कटेरी, बडीकटेरी, पादु, कुटकी, अतीस, नागरमोथा और मधुर गुणकी औषधी इनके द्वारा घृतको पकावे । यह घृत-बालकोंके श्त निकलते समयकी समस्त पीडाको दूर करता है ॥ १८६ ॥

श्यामाद्यघृत ।

श्यामाजयासतित्तानां पुष्पाणां काथसाधितम् । यष्टीगर्भं घृतं पीत्वा कासश्वासौ जयेच्छिशुः । रक्तपित्तं पिपासाश्च मूर्च्छां निरवशेषतः ॥ १८७ ॥

निसोत, अरणी और कुटकी इनके फूलोंके काथके द्वारा और मुलैठीके कल्कके द्वारा घृतको पकावे । इस घृतको पान करनेसे बालकोंकी खाँसी, श्वास, रक्तपित्त, पिपासा और सर्वप्रकारकी मूर्च्छा दूर होती है ॥ १८७ ॥

नागराद्यघृत ।

नागरं सुवहाभाङ्गीं नैचुलानि फलानि च । कल्कैरक्षसमेरैतैः प्रस्थार्थं सर्पिषः पचेत् ॥ १८८ ॥ द्विगुणेन जलेनैव जीर्णाहारः पिबेत् शिशुः । घृतमेतन्निहन्त्याशु कासश्वासापतन्त्रकान् ॥ १८९ ॥

सोंठ, हारसिंगार, भारगी और ममुद्रफल इनके एक एक तोला कल्कके द्वारा आधे प्रस्थ घृतको दुगुने जलमे पकावे । इस घृतको आहारके जीर्ण होनेपर पान करे । यह घृत-खाँसी, श्वास और अपतन्त्र-करोगको दूर करता है ॥ १८८ ॥ १८९ ॥

क्षीरद्वयाद्यघृत ।

क्षीरद्वयं देवदारुविश्वाजाजीसदीप्यकम् । ग्रन्थिकं पिप्पलीतित्ताद्रव्यैरेतैः समैर्वृतम् ॥ १९० ॥ सौवीरदधिमद्यैश्च कल्कैरेतैः पचेद्विपक्व । प्रयुक्तं हन्ति तत्सर्पिः शिशोः परिभवाख्यकम् ॥ १९१ ॥

दो प्रकारके दूध, देवदारु, सोंठ, जीरा, अजमोद, पीपलामूल, पीपल और कुटकी इनके कल्कके द्वारा तथा सौवीरनामक कौजी, दही और मदिराके द्वारा कल्कद्रव्योंसे समभाग घृतको पकावे । यह घृत-बालकोंके परिभव या पारिगर्भ रोग दूर करता है ॥ १९० ॥ १९१ ॥

विभीतकाद्यतैल ।

विभीतकं वचा कुष्ठं हरितालं मनःशिला । एभिस्तैलं विपक्वन्तु बालानां पूतिकर्णके ॥ १९२ ॥

वहेडा, वच, कूठ, हरिताल और मैनाशिल इनके कल्कके द्वारा तेलको पकावे । यह तेल-बालकोंके पूतिकर्णरोगमें अत्यन्त हितकारी है ॥ १९२ ॥

लाक्षाद्यतैल ।

लाक्षारससमं तैलं सिद्धं मस्तुचतुर्गुणम् । रास्नाचन्दनकुष्ठाद्दवाजिगन्धानिशायुतैः ॥ १९३ ॥ शताह्वादारुकुष्ठाहमूर्वातित्ता-हरेणुभिः । बालानां ज्वररक्षोघ्नमभ्यङ्गाद्बलवर्णकृत ॥ १९४ ॥

लाखका रस १ भाग, तिलका तेल १ भाग, दहीका तोड ४ भाग, तथा कल्कके लिये रायसन, चन्दन, कूठ, नागरमोथा, असगन्ध, हलदी, शतावर, देवदारु, कूठ, भुईआमला, मूर्वा, कुटकी और रेणुका इनके कल्कके द्वारा उपर्युक्त द्रव्योंमे तेलको पकावे । इस तेलकी मालिश करनेसे बालकोंका ज्वर और

राक्षसवाधा दूर होती है । तथा बल और वर्णकी वृद्धि होती है ॥ १९३ ॥ १९४ ॥

अथ बालग्रहनिदान ।

सामान्यग्रहसितके लक्षण ।

क्षणाद्द्विजते बालः क्षणाद्भ्रस्यति रोदिति । नखैर्दन्तैर्दारयति धात्रीमात्मानमेव च ॥ १९५ ॥ ऊर्ध्वं निरीक्षते दन्तान्खादेत्कूजति जृम्भते । भ्रुवौ क्षिपति दन्तोष्ठं फेनं वमति चासकृत् ॥ १९६ ॥ क्षामोऽति निशि जागर्ति शूनाङ्गो भिन्नविट्स्वरः । मांसशोणितगन्धश्च न चाश्नाति यथा पुरा ॥ सामान्यग्रहजुष्टानां लक्षणं समुदाहृतम् ॥ १९७ ॥

क्षणमें बालक विकल होकर डरने लग जाय, क्षणमें दुःखी होकर रोने लग, नख और दाँतोंसे माताके और अपने शरीरको काटे, ऊपरकी ओर देखे, दाँतोंको चावे, किल्ली मारे, जम्माई लेवे, भौंह, दात और होंठोंको चलाता रहे, बारम्बार मुखसे झाग डाले, अत्यन्त कृश होजावे, रात्रिमें जागता रहे शरीरमें सूजन हो, मल पतला उतरे, स्वर मन्द होजाय, शरीरमें रुधिर और मांसके समान दुर्गंध आवे और पहिलेकी अपेक्षा भोजन कम करे अर्थात् भूख घटजाय । ये सब सामान्य ग्रहजुष्टबालकोंके लक्षण कहे हैं ॥ १९५ ॥ १९६ ॥ १९७ ॥

बालग्रहकी चिकित्सा ।

रसोननिम्बपत्राणि जतुवंशावलेखनम् । सिद्धार्थनिम्बपत्राणि वंशत्वग्जतुना सह ॥ १९८ ॥ सर्पनिर्मोककोशानि निर्माल्यं गौरसर्षपाः । धूपत्रयं ससर्पिष्कमेतत्सर्वग्रहापहम् ॥ १९९ ॥

लहसुन, नीमके पत्ते, लाख और वंशलोचन १ एवं सफेद सरसो, नीमके पत्ते, वंशत्वचा और लाख २ अथवा साँपकी कैचली, जायफल, शिवनिर्माल्य और सफेद सरसों ३ इन तीनों धूपोंसे किसी एकको लेकर घीमें मिलाकर बालकको धूप देनेसे

बालकोंकी सर्वप्रकारके ग्रहोंकी बाधा दूर होती है ॥ १९८ ॥ १९९ ॥

द्वीपिव्याघ्राऽहिसिंहर्क्षचर्मभिर्घृतमिश्रितैः । पूतीकरञ्जसिद्धार्थवचामल्लातदीप्यकैः ॥ सकुष्ठैः सघृतैर्धूपः सर्वग्रहविमोक्षणः ॥ २०० ॥

गैडा, वाघ, साँप, सिंह और रीछ इनके चर्ममें घृत मिलाकर धूप देनेसे, अथवा दुर्गंधकरज, सफेद सरसों, वच, मिलावे, अजवायन और कूठ इन सब औषधियोंको एकत्र पीसकर घृत मिलाकर धूप देनेसे सर्वप्रकारके ग्रहोंकी बाधा शांत होती है ॥ २०० ॥

काकजङ्गामलाश्वेताकपित्थक्षरिपादिकैः । सकरञ्जकदंबैश्च धूपं स्नातस्य वाचरेत् ॥ २०१ ॥

काकजंघा, भुईआमला, सफेद कोइल, कैथ, क्षीरवृक्षोकी जड, करंज और कदवकी जड इन सबको एकत्र पीसकर स्नान किये हुए बालकको धूनी देनेसे सर्वप्रकारकी ग्रहवाधा शांत होती है ॥ २०१ ॥

अथ स्कन्दग्रहजुष्टके लक्षण ।

एकनेत्रस्य गात्रस्य स्त्रावः स्पन्दनकम्पनम् । अर्द्धदृष्ट्या निरीक्षेत वक्रास्यो रक्तगन्धिकः ॥ २०२ ॥ दन्तान्खादति विघ्नस्तः स्तन्यं नैवाभिनन्दति । स्कन्दग्रहगृहीतानां रोदनं चाल्पमेव च ॥ २०३ ॥

बालककी एक आँखमेंसे पानी बहे, एक औरका अंग फडके और काँपे, आधी दृष्टिसे देखे, मुख टेढ़ा होजावे, शरीरमें रुधिरके समान दुर्गंध आवे, दाँतोंको चावे, शरीर शिथिल होजाय, माताके दूधको नहीं पीवे और थोडा रोवे ये स्कन्दग्रहग्रसित बालकोंके लक्षण होते हैं ॥ २०२ ॥ २०३ ॥

स्कन्दग्रहजुष्टकी चिकित्सा ।

स्कन्दोपग्रहसृष्टानां कुमाराणाश्च शस्यते । वातघ्नद्रुमपत्राणां निष्काथः परिषेचने ॥ २०४ ॥ तेषां मूलेन सिद्धं च तैलमभ्यञ्जने हितम् । सर्वगंधसुरामण्डकैट्य्यावापिमिष्यते ॥ २०५ ॥

स्कन्दग्रहसे ग्रसित बालकको वातनाशक वृक्षोंके पत्तोंका काथ बनाकर उससे सेचन करे अर्थात् स्नाव करावे तथा उन्हीं वातनाशक वृक्षोंकी जडके कल्कके द्वारा तेलको पकाकर उस तेलमें सर्वप्रकारके सुगंधितद्रव्य, सुरामंड और नीमका चूर्ण डालकर अभ्यगके लिये प्रयोग करे ॥ २०४ ॥ २०५ ॥

देवदारुणि रास्त्रायां मधुरेषु गणेषु
च । सिद्धं सर्पिंश्च सक्षीरं पानमस्मै
प्रदापयेत् ॥ २०६ ॥

देवदारु, रास्त्रा और समस्त मधुरवर्गकी औषधियोंके कल्क और दूधके साथ घृतको पकाकर वह घृत बालकको पीनेके लिए देवे ॥ २०६ ॥

सर्षपाः सर्पनिर्मोको वचाकाकादनी-
घृतम् । उष्ट्राजाविगवां वापि रोमा-
ण्युद्धमनं शिशोः ॥ २०७ ॥

सरसो, साँपकी कैचुली, वच, सफेद घुँघुची, घाँ, ऊँट, बकरी, भेड और गायके रोम इन सबकी धूप बनाकर बालकको देवे ॥ २०७ ॥

रक्तानि माल्यानि तथा पताका
रक्ताश्च गन्धान्विविधांश्च भक्ष्यान् ।
घण्टा च देवाय बलिं निवेद्य सकुक्कु-
टं स्कन्दग्रहे हिताय ॥ स्नानं त्रि-
रात्रं निशि चत्वरेषु कुर्यात्परं शा-
लियवैनिवेद्यम् ॥ २०८ ॥ गायत्रि-
पूताभिरथाद्भिरग्निं प्रज्वालयेदाहुति-
भिश्च धीमान् ॥ २०९ ॥

स्कन्दग्रहजुष्ट बालकके हितके लिये लालफूलोंकी माला, लाल झंडी, लाल चंदन, नानाप्रकारके गंध, लोबान, गूगल इत्यादि गंधद्रव्य, अनेकप्रकारके भक्ष्य पदार्थ, घटा और मुरगा ये सब बालकपर उतारकर चौराहेमें देवताके निमित्त रखे । नवीन शालीचावल और नवीन जौ इनका बलिदान देकर जलको गायत्री मंत्रसे अभिमंत्रित करके रात्रिमें बालकको चौराहेमें तीन रात्रि तक स्नान करावे, नवीन शालिके चावल और नवीन जौकी आहुति अग्निमें देवे ॥ २०८ ॥ २०९ ॥

सोमवल्लीमिन्द्रवल्लीं वृन्दाकं बिल्वजं
शमीम् । मृगादन्याश्च मूलानि प्र-
थितान्यथ धारयेत् ॥ २१० ॥

सोमलता, इन्द्रायण, बेलके पेडका वंदा, छोकर और इन्द्रायणकी जड इन सबको एक डोरेमें बांधकर उस डोरेको बालकके गलेमें पहना देवे ॥ २१० ॥

एलवालुकदाव्वेला-कुप्टलाक्षाहरेणु-
भिः । रास्त्राशिलासमञ्जिष्ठाद्भिवि-
गुरुचन्दनैः ॥ स्कन्दग्रहे प्रलेपोऽयं
श्लक्ष्णपिष्टैः समाहितः ॥ २११ ॥

एलुआ, दारुहलदी, इलायची, कूठ, लाख, रेणुका, रास्त्रा, मनशिल, मजीठ, सुगन्धवाला, अगर और चन्दन इन सबको एकत्र चारीक पीसकर स्कन्दग्रहकी जातिके लिये बालकके शरीरपर लेप करे २११

बिल्वाग्निमन्थतर्कारीकासीसैरण्डप-
ल्लवैः । पाटल गस्फोतवासामिः सायं
पानं प्रशस्यत ॥ २१२ ॥

बेलगिरी, अरणी, जैती, कसीस, अंडके पत्ते, पाटल, कोइली और अडूसा इनका काथ बनाकर सन्ध्याके समय बालकको पान करावे ॥ २१२ ॥

जीवनीयाविपक्वन्तु घृतपानं प्रशस्य-
ते । शतपुष्पादिभिः सिद्धं तैलमभ्य-
ञ्जने हितम् ॥ २१३ ॥

स्कन्दग्रहग्रसित बालकको जीवनीयगणकी औषधियोंके द्वारा घृतको पकाकर सेवन करावे । और शतपुष्पादि औषधियोंके द्वारा तेलको पकाकर उसकी बालकके शरीरपर मालिश करे ॥ २१३ ॥

रक्षाविधि ।

रक्षामतः प्रवक्ष्यामि बालानां ग्रह-
नाशिनीम् । अहन्यहनि कर्त्तव्या
याभिरद्भिरतन्द्रितैः ॥ २१४ ॥

अब बालकोंके ग्रहोंको दूर करनेवाली रक्षाको कहता हूँ । वैद्य आलस्यको त्याग कर नित्य बालकोंके निकट निम्नलिखित जलसे सेचन करता हुआ रक्षापाठ पढ़े ॥ २१४ ॥

तपसां तेजसाश्चैव वपुषां यशसां
तथा । निधानं योऽव्ययो देवः स ते
स्कन्दः प्रसीदतु ॥ २१५ ॥

जो तपके, तेजके, यशके तथा शरीरकी साम-
र्थ्योंके भंडाररूप हैं ऐसे देव कार्तिकेय स्वामी तेरे
ऊपर प्रसन्न हों ॥ २१५ ॥

ग्रहसेनापतिदेवो देवसेनापतिर्विभुः ।
देवसेनारिपुहरः पातु त्वां भगवान्
गुहः ॥ २१६ ॥

ग्रहोंके सेनापति, देवताओंके सेनापति और
देवताओंकी सेनाके शत्रुओंको नाश करनेवाले, व्याप-
क और महासामर्थ्ययुक्त कार्तिकेय देव तेरी रक्षा
करें ॥ २१६ ॥

देवदेवस्य महतः पावकस्य च यः
सुतः । गङ्गोमाकृतिकानाश्च स ते
शर्म प्रयच्छतु ॥ २१७ ॥

जो महादेवके, अम्रिक, गंगाके, पार्वती और
कृत्तिकाके पुत्र हैं ऐसे कार्तिकेयस्वामी तेरा कल्याण
करें ॥ २१७ ॥

रक्तमाल्यांबरः श्रीमात्रक्तचन्दनभू-
षितः । रक्तदिव्यवपुर्देवः पातु त्वां
क्रौञ्चनाशनः ॥ २१८ ॥

लालफूलोंकी माला और लाल बख्तोंको धारण
करनेवाले, श्रीसम्पन्न, लालचन्दनसे विभूषित, लाल
और दिव्यशरीरवाले एव क्रौञ्च नामक दैत्यका
नाश करनेवाले कार्तिकेय देव तेरी रक्षा करें ॥ २१८ ॥

अथ स्कन्दापस्मारग्रहजुष्टानिदान ।
नष्टसंज्ञो वमेत्फेनं संज्ञावानतिरो-
दिति । पूयशोणितगंधित्वं स्कन्दाप-
स्मारलक्षणम् ॥ २१९ ॥

जो बालक बेहोश होजाय, मुखसे झागोंको गेरे,
चेतन्य होनेपर बहुत जोरसे रोवे तथा जिसके
शरीरमें राध और रुधिरके समान वास आवे उसको
स्कन्दापस्मारग्रहसे ग्रसित जानना ॥ २१९ ॥

तस्य चिकित्सा ।

विल्वः शिरीषो गोलोमी सुरसादि-

श्च यो गणः । परिषेके प्रयोक्तव्यः
स्कन्दापस्मारशान्तये ॥ २२० ॥

बेलकी जड़, शिरस, सफेद दूब और सुरसादि-
गणकी औषधियां इनके काथसे स्कन्दापस्मारग्रहकी
शांतिके लिये बालकके शरीरको सेचन करे ॥ २२० ॥

सुरसादिगण ।

सुरसा श्वेतसुरसा पाठा फञ्जी फणि-
ज्जकः । सौगधिकं भूस्तृणको राजिका
श्वेतवर्बरी ॥ २२१ ॥ कटफलं खरपु-
ष्पा च कासमर्दश्च शल्लकी । विडङ्ग-
मथ निर्गुण्डी कर्णिकार उडुम्बरः ॥
२२२ ॥ बला च काकमाची च
तथा च विषमुष्टिका । कफकृमिहरः
ख्यातः सुरसादिरयं गणः ॥ २२३ ॥

तुलसी, सफेद तुलसी, पाठ, भारंगी, मरुआ,
कहारनामक सुगंधि कुमुद, भृस्तृणनामक सुगंधि तृण,
राई, सफेद सरसों, कायफल, कालीवनतुलसी, कसौंदी,
सालई, वायविडंग, निर्गुण्डी, सन्हाल, कनेर, गूलर,
खिरटी, मकोय और तेंदू इन सब औषधियोंके
समुदायको सुरसादिगण कहते हैं । यह सुरसादिगण
कफ और कृमियोंको नष्ट करता है ॥ २२१-२२३ ॥

अष्टमूत्रतैल ।

अष्टमूत्रविपकं तु तैलमभ्यञ्जने
हितम् ॥ २२४ ॥

गाय, बकरी, भेंड, भैंस, घोडा, गवा, ऊँट और
हाथी इन आठ पशुओंके मूत्रके द्वारा तेलको पकावे।
इस तेलकी मालिश करनेसे स्कन्दापस्मारग्रह शान्त
होता है ॥ २२४ ॥

काकोल्यादिवृत ।

क्षीरवृक्षकषाये तु काकोल्यादौ गणे
तथा । विपक्तव्यं घृतश्चापि पानीयं
पयसा सह ॥ २२५ ॥

क्षीरवृक्षोंके काथमें काकोल्यादि गणकी औषधि-
योंके कल्कके साथ घृतको पकाकर बालकको दूधके

साथ पिलावे इससे, स्कन्दापस्मारग्रह शान्त होता है ॥ २२५ ॥

उत्सादनं वचाहिंशुयुक्तं स्कन्दग्रहे हितम् ।

वच और हाग इनके कल्कके द्वारा बालकके शरीर पर उबटन करना स्कन्दापस्मारग्रहजुष्टमे अत्यन्त हितकारी है ।

**गृध्रोल्कपुरीषाणि केशा हस्तिनखो-
द्धृतम् । वृषभस्य तु रोमाणि योज्या-
न्युद्धूपनेऽपि च ॥ २२६ ॥**

गांधकी विष्टा, उल्लूकी विष्टा और बाल, हाथीके नख, और बैलके रोम इनकी नित्य धूनी देनेसे स्कन्दापस्मारकी शांति होती है ॥ २२६ ॥

अनन्तां कुनटीं बिम्बीं मर्कटीश्चापि धारयेत् ।

जवासा (सेमलके पुष्प), मैनाशिल, कन्दूरी और कौलकी जड इन सबको डोरेमे बाँधकर बालकके गलेमे बाँध देवे ।

**पक्वापक्वानि मांसानि प्रसन्नां रुधिरं
तथा ॥ २२७ ॥ सुद्वौदनो निवेद्यश्च
स्कन्दापस्मारिणे वटे । चतुष्पथे च
कर्तव्यं स्नानमस्य यत्तात्मना ॥ २२८ ॥**

स्कन्दापस्मारकी शांतिके लिये अनेक प्रकारके पक्वान् अथवा अपक्व अन्न, मांस, मदिरा, रुधिर और मूँगभात इन सबको एक सेनकमे भरकर रात्रिके समय वडके वृक्षके तले या चौरायेमे रख देवे । फिर भालकको स्नान कराकर उसके निकट एकाग्र चित्तसे नीचे लिखा मंत्र पढे ॥ २२७ ॥ २२८ ॥

**स्कन्दापस्मारसंज्ञो यः स्कन्दस्य
दयितः सखा । विशाखसंज्ञश्च शि-
शोः शिवोऽस्तु विकृताननः ॥ २२९ ॥**

कार्तिकेयस्वामीका विकृत मुखवाला स्कन्दापस्मार जो भियमित्र है, उसको विशाख भी कहते हैं वह उस बालकका कल्याण करे ॥ २२९ ॥

अथ शकुनिग्रहका निदान ।

**स्रस्ताङ्गो भयचकितो विहङ्गगन्धिः
साम्नावघ्रणपरिपीडितः समन्तात् ।**

**स्फोटैश्च प्रचिततनुः सदाहपाकैर्वि-
ज्ञेयो भवति शिशुर्युतः शकुन्या २३० ॥**

जिसका शरीर शिथिल हो, जो भयसे चकित हो जाय, जिसके शरीरमे पक्षिके समान गन्ध आवे, चहुँ ओर स्राववहित व्रणोसे पीडित और दाह तथा पाकयुक्त फोडोसे सारा शरीर व्याप्त हो उस बालक को शकुनिग्रहग्रसित जानना ॥ २३० ॥

शकुनिग्रहकी चिकित्सा ।

**शकुन्याभिपरीतस्य कार्यो वैद्येन जा-
नता । वेतसाम्प्रकपित्थानां निःका-
थपरिषेचने ॥ २३१ ॥**

जो बालक शकुनिग्रहसे पीडित हो, उसको विज्ञ वैद्य वेत, आम और कैथके काथसे परिसेचन करे ॥ २३१ ॥

**कषायमधुरैस्तैलं कार्यमभ्यञ्जने शि-
शोः ॥ २३२ ॥**

कषैली और मधुर औषधियोंके काथ तथा कल्क के द्वारा तेलको पकाकर बालकके अभ्यंग करनेके लिये प्रयोग करे ॥ २३२ ॥

**मधुकोशीरहीबेरशारिवोत्पलपद्मकैः ।
लोध्रं प्रियंगुमञ्जिष्ठागैरिकैः प्रदिहे-
च्छिशुम् ॥ २३३ ॥**

मुलैठी, खस, सुगन्धवाला, शारिवा, कमल, पद्माख, लोध, फूलप्रियंगु, मजीठ और गेरू इनको एकत्र पीसकर बालकके शरीरपर लेप करे या सूका बुरकावे अर्थात् छिडके ॥ २३३ ॥

**व्रणेषूक्तानि चूर्णानि पथ्यानि विवि-
धानि च । स्कन्दग्रहे धूपनानि
तानीहापि प्रयोजयेत् ॥ २३४ ॥**

व्रणरोगमे जो चूर्ण और पथ्य कहे हैं तथा स्कन्दग्रहमे जो धूप कही है वे सब इस शकुनिग्रहसे पीडित बालकके लिये भी प्रयोग करे ॥ २३४ ॥

**शतावरीमृगैर्बार्शुनागदन्तीनिदिग्धि-
काः । लक्ष्मणां सहदेवीश्च बृहती-
श्चापि धारयेत् ॥ २३५ ॥**

गतावर, बड़ी इन्द्रायण, नागदौत, कटेरी, लक्ष्मणा, सहदेई और बड़ी कटेरी इन सबकी जडको एक डोरेमें बांधकर बालकके गलेमें बांधदेवे ॥ २३५ ॥

तिलतंडुलकं माल्यं हरितालं मनः-
शिला । बलिरेष करञ्जेषु निवेद्यो
नियतात्मना ॥ २३६ ॥

तिल, चावल, माला, हरिताल और मैनगिल इनकी करंजके वृक्षके नीचे स्थिरचित्त होकर बलि देवे ॥ २३६ ॥

निकुञ्जे च प्रयोक्तव्यं स्नानमस्य यथा
विधि । श्वेताशिरीषगन्धाष्टकुष्ठगु-
गुलुसर्षपैः ॥ २३७ ॥ सिद्धमभ्यञ्जने
तैलं धारणं पूर्वमेव तु । शकुनिग्रह-
शान्त्यर्थं प्रदेहं कारयेद्वितम् ॥ २३८ ॥

फिर निकुञ्जस्थानमें बालकको विधिपूर्वक स्नान करावे । और उससे पहलेही सफेद दूब, गिरस, अष्ट-गंध, कूठ, गुगल और सरसों इनके कलकद्वारा तेलको पकाकर रखदेवे फिर बालकको स्नान करानेके पश्चात् इस तेलकी मालिस करावे । यह, तेल शकुनिग्रहकी शांतिके लिए अत्यन्त उपयोगी है ॥ २३७ ॥ २३८ ॥

स्कन्दापस्मारशमनं घृतश्वामीह यो-
जयेत् । कुर्म्याञ्च विविधां पूजां शकु-
न्याः कुसुमैः शुभैः ॥ २३९ ॥

स्कन्दापस्मारको शमन करनेवाला जो घृत कहा है वह घृत भी इसमें प्रयोग करना चाहिये । एवं अनेक प्रकारके उत्तम फूलोंसे शकुनिग्रहकी विविधप्रकारसे पूजा करे और नीचे लिखे मंत्रको पढ़े ॥ २३९ ॥

अन्तरिक्षचरा देवी सर्वालङ्कारभूषि-
ता । अधोमुखी तीक्ष्णतुण्डा शकुनी
ते प्रसीदतु ॥ २४० ॥

अन्तरिक्षमें विचरण करनेवाली, सम्पूर्णअलंकारोंसे सुशोभित, नीचेकी मुखवाली और तीक्ष्ण मुखवाली शकुनिदेवी तेरे ऊपर प्रमन्न हो ॥ २४० ॥

अथ रेवतीग्रहका निदान ।

व्रणैः स्फोटश्चितं गात्रं पंकगन्धं स्रवे-

दसृक् । भिन्नवर्चा ज्वरी दाही रेव-
तीग्रहलक्षणम् ॥ २४१ ॥

जिसका शरीर व्रण और फोड़ोंसे भरा हो, उन-मेंसे कीचकी समान दुर्गन्ध आती हो और सधिर बहता हो, मल पतला हो, उबर और दाह हो तो उस बालकको रेवतीग्रहसे पीडित जानना चाहिए ॥ २४१ ॥

रेवतीग्रह चिकित्सा ।

अश्वगन्धाजशृङ्गी च शारिवाथ पु-
नर्नवा । सहे विदारी च तथा कषायं
परिषेचने ॥ २४२ ॥

असगन्ध, मेढाशिगी, शारिवा, पुनर्नवा, दोनो प्रकारका पिथावासा और विदारीकन्द इनके काथसे बालकको सेचन करे ॥ २४२ ॥

तैलमभ्यञ्जने कार्थ्यं कुष्ठे सर्जरसे
तथा । पलंकषायं नलदे तथा गिरि-
कदम्बके ॥ २४३ ॥

कूठ, राल, गुगल, खस और पर्वती कदम्ब इनके कलकसे तेलको पकाकर बालकके शरीरमें मले २४३ ॥

धवाश्वकर्णककुभधातकीतिन्दुकेषु च।
काकोल्यादौ गणे चापि पानीयं
सर्पिपरिष्यते ॥ २४४ ॥

धव, अश्वकर्णकाल, अर्जुन, धायके, फूल, तेदू और काकोल्यादिगणकी औषधियों इनके कलकके द्वारा घृतको पकाकर बालकको पिलावे ॥ २४४ ॥

कुलित्याः शंखचूर्णञ्च प्रदेहः पूर्वगंधि-
काः । मृध्नोलूकपुरीषाणि वचायवफलं
घृतम् ॥ सन्ध्ययोरुभयोः कार्थ्यमेत-
द्ब्रूपनं शिशोः ॥ २४५ ॥

कुलथी, शंखका चूर्ण और असगंध इनको एकत्र पीसकर लेप करे । गीधकी विष्टा, उल्लूकी विष्टा, वच, जौ अथवा वासके अंकुर और घृत इनकी धूनी बालकको दोनों संध्याओंमें देवे ॥ २४५ ॥

शुक्लाः सुमनसो लाजाः पयः शाल्यो-
दनं तथा । बलिनिवेद्यो गोतीर्थे
रेवत्यै प्रयतात्मना ॥ २४६ ॥

वैद्य स्थिरचित्त होकर रेवतीग्रहकी शान्तिके लिये गायत्रे स्थानमें सफेद फूल, खीलें, दूध और गालिचावलोका भात इनकी बलि देवे और "नाना-शस्त्रधरा" इस मंत्रको पढे ॥ २४६ ॥

सङ्गमे च भिषक् स्नानं कारयेत्स्त्री-
कुमारयोः ॥ २४७ ॥

जहाँ समुद्र और नदी मिली हो अथवा जहाँ दो नदी मिली हों ऐसे स्थानमें वैद्य बालक और उसकी माताको स्नान करावे ॥ २४७ ॥

नानाशस्त्रधरा देवी चित्रमाल्या-
तुलेपनैः ॥ चलत्कुण्डलिनी श्यामा
रेवती ते प्रसीदतु ॥ २४८ ॥

अनेक शस्त्रोंको धारण करने वाली चित्रविचित्र पुष्पोंकी मालाओंसे सुशोभित, विचित्र लेपनयुक्त, चलत्कुण्डवाली और श्यामवर्णवाली ऐसी रेवती देवी तेरे ऊपर प्रसन्न हो ॥ २४८ ॥

अथ पूतनाग्रहजुष्टके लक्षण ।
अतिसारो ज्वरस्तृष्णा तिर्यक्प्रेक्ष-
णरोदनम् । नष्टनिद्रस्तथोद्विग्नो ग्रह-
पूतनया शिशुः ॥ २४९ ॥

जो बालक पूतनाग्रहसे ग्रसित होता है वह अतिसार, ज्वर और तृषासे पीडित होता है, टेढ़ी दृष्टिसे देखता है, रोता है, निद्रा नहीं आती और विह्वल रहता है ॥ २४९ ॥

पूतनाग्रहजुष्टकी चिकित्सा ।
अरलुकपोतवङ्गा च वरुणः पारिभ-
द्रकः । आस्फोटा चैव योज्याः स्यु-
र्वालानां परिषेचने ॥ २५० ॥

अरलु (श्योनाक), ब्राह्मी, वरना, फरहद अथवा नीम और अपराजिता (कोइली) इनके काथसे बालकोके शरीर पर सेचन करे ॥ २५० ॥

वचावयस्थागोलोमीहरितालं मनः-
शिला । कुष्ठं सर्जरसश्चैव तैलार्थे वर्ग
इष्यते ॥ २५१ ॥

वच, हर्द, सफेद दूब, हरिताल, मैनाशिल, कूट और राल इनके कल्केके द्वारा तेलको पकाकर बालकके शरीरमें मालिस करे ॥ २५१ ॥

हितं घृतं तुगाक्षीर्या सिद्धं मधुर-
केषु च ॥ २५२ ॥

इसमें बंगलोचन और मधुरादिगणकी औषधि-योंके द्वारा घृतको पकाकर पान करना हितकारी है ॥

कुष्ठतालीशतगरं चन्दनस्यन्दने त-
था । ब्रह्मास्थिमूलसंयुक्तं कुशमूलञ्च
सप्तकम् ॥ २५३ ॥ दूर्वायाः पत्रकं
वापि तण्डुलांश्चाक्षतांस्तथा । धूप-
नात्पूतनां हन्ति स्तम्भं वाप्युपजा-
यते ॥ २५४ ॥

कूठ, तालीशपत्र, तगर, चन्दन, तिरिछ ढाककी जड़, कुगाकी जड़, दूबके सात पत्ते और अक्षत चावल इन सबकी एकत्र धूनी देनेसे पूतनाग्रह दूर होता है । अथवा पूतनाका स्तम्भन होता है ॥ २५३ ॥ २५४ ॥

हस्त्यस्थिशकलं गृह्य वाग्निना परिपे-
षयेत् । गात्रलेपात्कुमाराणां पाना-
द्वा पूतनां जयेत् ॥ २५५ ॥

हाथीकी हड्डीके टुकड़े जलमें पीसकर बालकोके शरीरपर लेप करनेसे अथवा पान करनेसे पूतनाग्रहकी बाधा शान्त होती है ॥ २५५ ॥

गन्धनाकुलिकुम्भीका मज्जानो बद्-
रस्य च । कुक्कुटास्थिघृतश्चापि धूपनं
सह सर्षपैः ॥ २५६ ॥

गंधनाकुली (नाई), जलकुम्भी, बेरकी मींग, सुरगेकी हड्डी, घी और सरसो इनकी धूप बनाकर देनेसे बालकोके पूतनाग्रहकी बाधा शांत होती है ॥ २५६ ॥

धवः कदम्बः कुष्ठैले तथा गिरिकद-
म्बकः । देवाहं रेणुका हिंशु प्रलेपः
पूतनागृहे ॥ २५७ ॥

धव, कदम्ब, कूठ, इलायची, पर्वतीकदम्ब, देव-दारु, रेणुका और हींग इतको एकत्र पीसकर बालकके शरीरपर लेप करनेसे पूतनाग्रहकी बाधा दूर होती है ॥ २५७ ॥

मत्स्योदनञ्च कुर्वात कृशारां पललं
तथा । शरावसंपुटे कृत्वा बलिं शून्य-
गृहे भिषक् ॥ २५८ ॥

मत्स्योदन, कुर्वात कृशारां पललं तथा । शरावसंपुटे कृत्वा बलिं शून्य-गृहे भिषक् ॥ २५८ ॥

मछली आंर भात,खिचडी आंर मांस इन सबको एक मट्टीके सकोरेमे रखकर वद्य मूने घरमें पृतनाके लिये बलिदान करे ॥ २५८ ॥

**काकादनीं चित्रफलां विम्बीं गुञ्जा-
श्च धारयेत् ॥ २५९ ॥**

सफेद घुघुची, इन्द्रायण, कन्दूरी आंर घूँघुची इनको एक डारम बांधकर बालकके गलेमे बांध देवे ॥ २५९ ॥

**मलिनांवरसंवीता मलिना रुक्षसू-
र्द्धजाः । शून्यागाराश्रया देवी दार-
कं पातु पूतना ॥ २६० ॥**

बालकके तिकट बैठकर कहे कि,—मले बच्चाको धारण करनेवाली, मलिन अंगवाली, रुखे वाले-वाली, आंर शून्यघरमें रहनेवाली पूतनादेवी इस बालककी रक्षा करे ॥ २६० ॥

अथान्धपूतनाग्रहनिदान ।

**छर्दिः कासो ज्वरस्तृष्णावसागन्धो-
ऽतिरोदनम् । स्तन्यद्वेषोऽतिसारश्च
अन्धपूतनया भवेत् ॥ २६१ ॥**

जिस बालकको अंधपूतना ग्रहण करती है, उमके बमन, खासी, ज्वर, तृषा आंर गरीरमे चर्बीके समान गंध होती है तथा वह बालक बहुत रोता है, दूध नहीं पीता आंर उसके दस्त होते हैं ॥ २६१ ॥

अथान्धपूतनाग्रहकी चिकित्सा ।

**तिक्तद्रुमाणां पत्रैस्तु क्वाथः काय्यो-
ऽभिषेचने ॥ २६२ ॥**

अंधपूतनाजुष्टबालकके गरीरको कडवे वृक्षोंके पत्तोंके काथसे धोना चाहिए ॥ २६२ ॥

**सुरासौवीरकं कुष्ठं हरितालं भनः-
शिला । तथा सर्जरसश्चापि तैलार्थ-
मुपसंहरेत् ॥ २६३ ॥**

मदिरा, काजी, क्रूठ, हरिताल, मैनगिल आंर रात इनके द्वारा तेलको पकाकर बालकके गरीर पर मर्दन करे ॥ २६३ ॥

**पिप्पल्यः पिप्पलीमूलं वर्गो मधुरको
मधु । शालिपर्णीबृहत्यो च घृतार्थमु-
पदिश्यते ॥ २६४ ॥**

पीपल, पीपलामूल, मधुरवर्गकी सम्पूर्ण औषधि-यां, शहद, शालिपर्णी, कटेरी आंर बड़ीकटेरी इनके कल्कके द्वारा घृतको पकाकर बालकको पान करावे ॥ २६४ ॥

**सर्वगन्धैः प्रदेहश्च गात्रेष्वक्षणोश्च शी-
तलैः ॥ २६५ ॥**

सम्पूर्ण सुगन्धितपदार्थोंको पीसकर शरीरपर लेप करे आंर नेत्रोंके ऊपर शीतल पदार्थोंका लेप करे ॥ २६५ ॥

**पुरीषं कौक्कुटं केशाश्चर्मसर्पभवन्त-
था । जीर्णश्चाभीक्षणशो वासो धूप-
नायोपकल्पयेत् ॥ २६६ ॥**

सुरगेकी विष्टा, बाल,सांपकी कैंचली, या चमडा आंर बालकके नीचेका पुराना वस्त्र इन सबकी धूनी देवे ॥ २६६ ॥

**काकादनीमृगैर्वाहृतुम्बीसत्रिफलाव-
चाः । धारणं शिरसा शस्तमन्धपूत-
नया ग्रहे ॥ २६७ ॥**

चौंटली, इन्द्रायण, कन्दूरी, कहुतुम्बीके बीज, त्रिफला आंर वच इनको एक डोरेमे बांधकर अंधपूत-ग्रहसे ग्रसित बालकके गिरमें बांध देवे ॥ २६७ ॥

**कौक्कुटीं मर्कटीं विम्बीमनन्ताश्चापि
धारयेत् ॥ २६८ ॥**

सेमल, करंज, कन्दूरी आंर जवासा, या अतन्त-मूल इनको भी एक डोरेमे बांधकर बालकके गलेमें बांधदेवे ॥ २६८ ॥

**आममांसं तथा पक्कं शोणितश्च चतु-
प्पथे । निवेद्यमन्तश्च गृहे शिशो
रक्षानिमित्ततः ॥ २६९ ॥ शिशोश्च
हनपनं कुर्म्यात्सर्वगन्धादिकैः शुभैः
कुंकुमागुरुकर्पूरकस्तूरीचन्दनैः समैः ।
सर्वगन्ध इति ख्यातो गणो ह्युत्तम-
गन्धकः ॥ २७० ॥**

कच्चा आंर पक्का मांस तथा रुधिरकी चौराहेमें आगे लिखे मंत्रसे बलि देवे फिर बालककी रक्षाके

लए उसको घरके भीतर सर्व सुगंधित पदार्थोंमें मलकर स्नान करावे। केशर, अगर, कपूर, कन्तूरी और चन्दन इन सब समान भाग मिश्रित आपधियोंको सर्वगंध कहते हैं। यह वर्ग उत्तम गंधवाला है ॥ २६९ ॥ २७० ॥

कराला पिङ्गला मुण्डी कृपायांबर-
वासिनी । देवी बालमिमं प्रीता सं-
रक्षत्वन्धपूतना ॥ २७१ ॥

बालकके निकट बैठकर यह कहे कि विक्राल, पिङ्गलवर्णवाली, मुंडित और भगवे कपड़ोंको धारण करनेवाली अन्धपूतना देवी प्रसन्न होकर इस बालककी रक्षा करे ॥ २७१ ॥

अथ शीतपूतनाग्रहके लक्षण ।
विपत्ते कासते क्षीणे नेत्ररोगो विग-
न्धिता । छर्द्यतीसारयुक्तश्च शीतपू-
तनया शिशुः ॥ २७२ ॥

जिस बालकको शीतपूतना ग्रहण करती है, वह काँपता है खांसता है, क्षीण होजाता है, नेत्ररोगसे पीडित होता है उसके शरीरमें दुर्गंध आती है तथा वह वमन और अतिसारसे दुःखित होता है ॥ २७२ ॥

शीतपूतनाग्रहकी चिकित्सा ।

विम्ब्रीं कपित्थं सुवहां तथा बिल्वत्व-
चां बले । नन्दी भल्लातकश्चैत्र परि-
षेके प्रयोजयेत् ॥ २७३ ॥

कन्दूरी, कैथ, हागसिंगार, बेलक्री छाल, भुरैटो, पारिसर्पापल और भिलावे इनके काथसे बालकके शरीरको सेचन करे ॥ २७३ ॥

वत्समूत्रं गवां मूत्रं सुस्ताश्चामरदारु-
च । कुष्ठश्च सर्वगन्धश्च तैलार्थमवचा-
रयेत् ॥ २७४ ॥

बकरेका मूत्र, गोमूत्र, नागरमोथा, देवदारु, कूठ और सर्वगन्ध इनके कलकके द्वारा तेलको पकाकर बालकके शरीरपर मर्दन करे ॥ २७४ ॥

रोहिणीसर्जखदिरपलाशककुभत्वचः ।
निष्काय्य तस्मिन्निष्काथे सक्षीरं
विपचेद् घृतम् ॥ २७५ ॥

कुटकी, जाल, खैर, ढाक और अंजुनकी छाल इनका काथ बनाकर उसमें दूधके साथ घृतको पकावे फिर वह घृत बालकको पान करावे ॥ २७५ ॥

प्रदेहः पतनोक्तो यः स शस्ताऽत्र य-
दौषधम् । शीतपूतनया प्रस्ते तदेव
हितमुच्यते ॥ २७६ ॥

पूतनागंगमं जो प्रलेपकी आपधि कही है, वही इस शीतपूतनाग्रमितबालकके लिये भी प्रयोग करनी चाहिये ॥ २७६ ॥

गृध्रोलूकपुरीषाणि वत्सगन्धामहित्व-
चम् । निम्बपत्राणि मधुकं धूपनार्थं
प्रयोजयेत् ॥ २७७ ॥

गोध और उल्लूकी विष्टा, वन तुलसीकी जटा, सापकी खाल, नीमके पत्ते और मुँठठी इनकी धूप बनाकर शीतपूतनामें देवे ॥ २७७ ॥

धारयेदपि लम्बाश्च गुञ्जां काका-
दनीं तथा ।

कडवी तोम्बी, चाँटली और सफेद चाँटली इनको एकत्र डोरेमें बांधकर बालकके गलेमें पहरा देवे ।

नद्यां मुद्गादनैश्चापि तर्पयेच्छीतपूत-
नाम् ॥ २७८ ॥ जलाशयान्ते वा-
लस्य स्नपनश्चोपदिश्यते । देव्यै
देयश्चोपहारो वारुणीरुधिरं तथा ॥

॥ २७९ ॥ मुद्गादनाशना देवी सुरा-
शोणितपायिनी । जलाशयरता
देवी पातु त्वां शीतपूतना ॥ २८० ॥

तदीपर मूंगभातसे शीतपूतनाको वृत्त करे । जलाशयमें बालकको स्नान करावे । शीतपूतनाको मदिरा और रुधिर चढाव । पश्चात् बालकके निकट यह पाठ पढे कि मूंगभातको खानेवाली, मदिरा और रुधिरको पीनेवाली तथा जलाशयोंमें रहनेवाली शीतपूतना देवी सर्वदा तेरी रक्षा करे ॥ २८० ॥ ॥ २७९ ॥ २८० ॥

अथ मुखमण्डिकाका निदान ।

प्रसन्नवर्णवदनः शिराभिरिव संवृतः ।
मूत्रगन्धीशुष्ककासी मुखमण्डिकया
ग्रहे ॥ २८१ ॥

मुखमण्डिकाग्रहसे ग्रसित होनेपर बालक प्रसन्न मुखवाला और उज्ज्वल वर्णवाला होता है और वह उभरीहुई नसोंमें व्याप्त होता है, उसके शरीरमें मूत्रके समान दुर्गंध आती है और सूखी खाँसी होती है ॥ २८१ ॥

मुखमण्डिकाकी चिकित्सा ।

कापित्थविल्वतर्कारीवासागन्धर्वहस्त-
कः । कुबेराक्षी च योज्याः स्युर्वा-
लानां परिषेचने ॥ २८२ ॥

कैथ, बेल, अरणी, अडूसा, अड और वनतुलसी इनके काथसे बालकोंके शरीरको परिषेचन करे २८२ ॥

स्वरसैर्भृङ्गवृक्षाणां ह्यगन्धस्य वै
तथा । तैलं वसाञ्च संयोज्य पचेद्भ्य-
जने शिशोः ॥ २८३ ॥

भाँगेरका स्वरस और असगव इनके काथके द्वारा चर्बीको अथवा तेलको पकावे । इस तेलका बालकके शरीर पर मर्दन करे ॥ २८३ ॥

मधूलिकायां पयसि तुगाक्षीर्या
गणे तथा । मधुरे पञ्चमूले च कनी-
यसि घृतं पचेत् ॥ २८४ ॥

मुलैठी, दूध, बंगलोचन, मधुरगणकी औषधियाँ और लघुपचमूलकी औषधियाँ इनके साथ घृतको पकाकर बालकोंको सेवन करावे ॥ २८४ ॥

वचासर्जरसः कुष्ठं सर्पिश्रोद्धूपने
हितम् । धारयेदपि जिह्वाश्च चापची-
रल्लिसर्पजाः ॥ २८५ ॥

वच, राल, कूठ और घी इनकी धूनी देवे । तथा नीलकण्ठ, चील और साँपकी जिह्वाको एक डोरेमें बाँधकर बालकके गलेमें बाँधदेवे ॥ २८५ ॥

वर्णकं चूर्णकं माल्यमञ्जनं पारदं
तथा । मनःशिलां चोपहरेद्रोष्ठमध्ये
बलिं तथा ॥ २८६ ॥ पायसं तु पुरो-
डाशं बल्यर्थमुपनाहयेत् । मन्त्रपूता-
भिरद्भिश्च तत्रैव स्नपनं हितम् ॥ २८७ ॥
अलंकृता रूपवती सुभगा कामरू-

पिणी । गोष्ठमध्यालयरता पातु त्वां
सुखमण्डिका ॥ २८८ ॥

चन्दन, सिगरफ, फूलोंकी माला, अंजन, पारा और मैन्शिल इनको गायके रहनेके स्थानमें मुखमण्डिकाको अर्पण कर खीरके पुरोडाशकी बलि देवे । पश्चात् निम्नलिखित मन्त्रसे जलको अभिमन्त्रित करके उसी स्थानमें बालकको स्नान करावे । शोभायमान, सुन्दररूपवाली, सुन्दर और यथेष्ट रूपको धारण करनेवाली और गायोंके स्थानमें रहनेवाली मुखमण्डिका देवीतेरी रक्षा करे ॥ २८६-२८८ ॥

अथ नैगमेषग्रहका निदान ।

छर्दिस्पन्दनकण्ठास्यशोषो मूर्च्छा
विगन्धिता । ऊर्ध्वं पश्येदशेदन्तान्नै-
गमेषं ग्रहं वदेत् ॥ २८९ ॥

जो बालक वमन करता हो, काँपता हो, जिसका कंठ और मुख सूख जाय, सदैव मूर्च्छा रहती हो, शरीरमेंसे दुर्गंध आती हो, वह ऊपरको देखता हो और दाँतोंको चाबता हो तब उसको नैगमेष ग्रहसे गृहीत कहना चाहिए ॥ २८९ ॥

नैगमेषग्रहकी चिकित्सा ।

विल्वाग्निमन्थपूनीकाः काय्याः स्युः
प्रतिषेचने । सुरासौवीरधान्याकं
परिषेके प्रशस्यते ॥ २९० ॥

बेलगिरी, अरणी और दुर्गंधकरंज इनके काथसे बालकको सेचन करे । अथवा मदिरा, काँजी और धनियाँ इनसे बालकके शरीरको सींचे ॥ २९० ॥

प्रियंगुसरलानन्ताशतपुष्पाकुट्टनटैः ।
पचेत्तैलं सगोभृवैर्दधिभस्तवम्लका-
ञ्जिकैः ॥ २९१ ॥

फूलप्रियंगू, धूपमरल, अनंतमूल, साँफ और श्योनाक इनके कलकके द्वारा गोमूत्र, दहीका तोड़ और खट्टी कांजांमें तेलको पकावे । इस तेलको बालकके शरीर आदिमें मर्दन करे ॥ २९१ ॥

पञ्चमूलद्वयकाथे क्षीरे च मधुके
तथा । पचेद् घृतञ्च मतिमान्खर्जूर्या
भस्तकेऽथवा ॥ २९२ ॥

दशमूलके काथ और मुलेठीके कल्कके द्वारा दूधमें घृतको पकावे अथवा खजूरके मस्तकके कल्कके द्वारा घृतको पकाकर बालकको सेवन करावे ॥२९२॥

बच्चा वयःस्थां गोलोमीं जटिलां
बापि धारयेत् ।

बच, हरड, सफेददूब और बालछड इनको एक डारेमें बांधकर बालकके गले आदिमें बांधदेवे ।

उत्सादनं हितं चात्र स्कन्दापस्मार-
नाशनम् ॥ २९३ ॥

स्कन्दापस्मारग्रहमें जो उत्सादन कहे है, वे ही इसमें प्रयोग करने चाहिये ॥ २९३ ॥

सिद्धार्थकं बचाहिं गुकुष्ठं चैवाक्षतैः
सह । भल्लातकाजमोदश्च हितमदू-
पनं शिशोः ॥ २९४ ॥ अधस्तात्क्षी-
रवृक्षस्य स्नपनं चोपदिश्यते ॥२९५॥
मर्कटोलूकगृथाणां पुरीषाणि पितृगृ-
हे । धूपः सुप्ते जने काय्यो बालस्य
हितमिच्छता ॥ २९६ ॥

बालकको सफेदसरसों, बच, हींग, कूठ, अक्षत भिलावे और अजमोद इनकी धूनी देवे । दूधवाले वृक्षके नीचे बालकको स्नान करावे । बालकके हितकी इच्छा करनेवाला वैद्य जब घरके सम्पूर्ण मनुष्य सोजाय तब बंदर उल्लू और गीधकी विष्टाकी पिताके घरमें धूप देवे ॥ २९४ ॥ २९५ ॥ २९६ ॥

तिलतंडुलकं माल्यं भक्ष्याणि विवि-
धानि च । कुमारपितृभेषाय प्लक्षमूले
निवेदयेत् ॥ २९७ ॥

तिल, चावल, फूलोंकी माला और अनेकप्रकारके मिष्ठान्न, पकान्न, भक्ष्य नैगमेपग्रहकी तृप्तिके लिये पासरकी जड़में बलिदान करे ॥ २९७ ॥

अजाननश्चलाक्षिभूः कामरूपी महा-
यशाः । बालं पालयिता देवो नैगमे-
पोऽभिरक्षितु ॥ २९८ ॥

बकरेके समान मुखवाला, पंचलनेत्र और भोह-
वाला, यथेष्टरूपोंको धारण करनेवाला महा यशस्वी

और बालककी रक्षा करनेवाला ऐसा नैगमेपग्रह इस बालककी रक्षा करे ॥ २९८ ॥

अथ अन्यग्रहप्रसितके लक्षण ।

यः कृशः शास्त्रदृग्वीक्षी तृडदाहा-
प्रतिघातकृत । कुर्याच्च साहसं क-
र्म सहसा कामपीडितः ॥ २९९ ॥
सशब्दं वीक्ष्यते रात्रौ यो नाशनाति
बुभुक्षितः । शुष्कास्यो बालिकामेन
स गृहीतोऽपि बाध्यति ॥ ३०० ॥

अब अन्यग्रहप्रसित बालकके तथा सम्पूर्ण मनुष्योंके लक्षण कहते हैं । जो कृश, शास्त्रदृष्टिसे देखनेवाला, तृपा और दाहसे व्याकुल होनेवाला, एक साथ कामसे पीडित होकर साहस कर्म करनेवाला, एवं रात्रिमें जो शब्द करे, चारों ओरको देखे तथा अत्यंत भूखा होनेपर भी भोजन नहीं करे और जिसका मुख सूखने लगे तो इन लक्षणोंसे युक्त बालक अथवा साधारण मनुष्यको बलिकी इच्छावाले ग्रहसे प्रसित जानना चाहिए ॥ २९९ ॥ ३०० ॥

ग्रहबाधाकी चिकित्सा ।

महासुण्डीतिकोदीच्यक्वाथस्नानं ग्र-
हापहम् । सप्तच्छदामयनिशाचन्दनै-
श्चानुलेपनम् ॥ ३०१ ॥

बड़ी गोरखमुडी और सुगंधवाला इनके काथसे बालकको स्नान करानेसे सर्वप्रकारके ग्रह नष्ट होते हैं । एवं सतवन, कूठ, हलदी और चंदन इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे समस्त ग्रहबाधा शांत होती है ॥ ३०१ ॥

समूला सदला पिष्टा मूर्वा तित्ता
समन्विता । शिशोरुद्धर्तनं कुर्या-
त्सर्वग्रहनिवारणम् ॥ ३०२ ॥

जड और पत्तोंसहित मूर्वा और कुटकीको एकत्र पीसकर बालकके गिरपर उद्धर्तन करनेसे सर्वप्रकारके ग्रहोंकी बाधा शांत होती है ॥ ३०२ ॥

सर्पत्वग्लशुनं मूर्वा सर्षपारिष्टपल्ल-
वाः । विडालविडजारोमभेषशृङ्गी-
वचाशु ॥ धूपः शिशोर्ज्वरघ्नोऽयम-
शेषग्रहनाशनः ॥ ३०३ ॥

सँपकी कैचली, लहजुन, मूवा, सरसों, नीमके पत्ते, विलावकी विष्ठा, बकरीके गोम, मेढाशिर्गा, वच और गहद इनकी धूना देनेसे बालकोंका ज्वर और समस्त ग्रहवाधा जाति होती है ॥ ३०३ ॥

मृतगोकुक्षिसंस्थेन गोमयेन च धूपन-
म् । हन्ति सर्वग्रहांश्चाशु ज्वरघ्नन्तु
न संशयः ॥ ३०४ ॥ बालशान्तीष्ट-
कर्माणि कार्याणि ग्रहशान्तये ३०५

मरी हुई गायके गावरकी धूनी देनेसे सर्व प्रकारके ज्वर और ग्रहवाधा जाति होती है । ग्रहोंकी शातिके लिये बालजाति आदि कार्य्य करे ॥ ३०४ ॥ ३०५ ॥

ग्रहेष्वधिपतिः स्कन्दः सर्वरोगेषु रेव-
ती । पूजनीयो ततस्तस्मात्तौ बाला-
नां हितेच्छया ॥ ३०६ ॥

सर्वग्रहोंका अधिपति स्कन्द है और सर्वरोगोंका अधिपति रेवती है । इस कारण बालककी हितकी इच्छा करनेवाले इन दोनोंकी पूजा करे ॥ ३०६ ॥

स्वस्ति ते सम्मुखः स्कन्दो महाभागा
च रेवती । दिशः सूर्योऽन्तरिक्षश्च
स्वस्ति कुर्वन्तु सर्वदा ॥ ३०७ ॥ तेज-
सा ब्रह्मणश्चाथ विष्णोरिन्द्रस्य ते-
जसा । सिद्धानां तेजसा चैव रक्षितो-
स्मिन्सुखी भव ॥ ३०८ ॥ मन्त्रैरेतैर्भि-
षक्पश्चाद्रक्षां कूर्वात बालके । भव-
न्ति निग्रहा बालाः सुखिनो रोगव-
र्जिताः ॥ ३०९ ॥

“स्वस्ति०सुखी भव”इन मंत्रोंके द्वारा बालककी रक्षा करे । इस प्रकार करनेसे बालक ग्रहरहित सुखी और रोगरहित हो जाते हैं ॥ ३०७-३०९ ॥

बालरोगाधिकारोक्तमष्टमंगलकं घृ-
तम् । भिषजा तत्प्रयोक्तव्यमायुर्वेद-
विचारिणा ॥ ३१० ॥

बालरोगाधिकारमें जो अष्टमंगलघृत कहा है उस अष्टमंगलघृतको आयुर्वेदको जाननेवाला वैद्य इस ग्रहवाधामें भी प्रयोग करे ॥ ३१० ॥

ग्रहोपसृष्टबालास्तु दुश्चिकित्स्यतमाः
स्मृताःविकल्पं मरणं वापि ध्रुवं स्कं-
दग्रहे नृणाम् ॥ ३११ ॥

ग्रहोंसे पीड़ित बालक प्रायः दुश्चिकित्स्य कहे हैं और स्कन्दग्रहमें तो बालकोंको निश्चय विकलता और मृत्यु होती है ॥ ३११ ॥

इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां बालरोगनिदान-
चिकित्साधिकार समाप्त ॥ ७० ॥

अथ विषरोगाधिकार ।

वैद्यके गुण ।

कुलिनं धार्मिकं स्निग्धं सुभृतं सत-
तोत्थितम् । अलुब्धमशठं भक्तं कृ-
तज्ञं प्रियदर्शनम् ॥ १ ॥ क्रोधपारु-
ष्यमात्सर्यमदालस्यविवर्जितम् ।
जितेंद्रियं क्षमावन्तं शुचिं शील-
दयान्वितम् ॥ २ ॥ मेधाविनमवि-
श्रान्तमनुरक्तं हितैषिणम् । पटुं प्रग-
ल्भं निपुणं दक्षं मायाविवर्जितम्
॥ ३ ॥ पूर्वोक्तैश्च गुणैर्युक्तं नित्यं सन्नि-
हिताऽगदम् । महानसे प्रयुञ्जीत वैद्यं
तद्विद्यपूजितम् ॥ ४ ॥

कुलीन, धार्मिक, स्निग्ध (रुक्षतारहित), सुभृत (जिसकी आजीविका अच्छेप्रकारसे होती हो), सततोत्थित (जो निरन्तर पढ़ने पढ़ाने और रोगियोंको आरोग्य करनेमें तत्पर रहता हो), लोभरहित, निष्कपट, भक्त, कृतज्ञ, रूपवान् तथा क्रोध, कर्कशता, मत्सरता, मद और आलस्यसे रहित, जितेंद्रिय, क्षमायुक्त, पवित्र, शील और दयासे युक्त, बुद्धिमान्, परिश्रमी, अनुरागयुक्त, हितैषी, चतुर, प्रगल्भ, निपुण, चतुर और मायारहित इन पूर्वोक्त गुणोंसे युक्त तथा सदैव रोगियोंको देखते रहनेवाले और पाकतत्त्वको जाननेवाले जिसकी प्रशंसा करते हों ऐसे वैद्यको पाकशालामें नियुक्त करे ॥ १-४ ॥

पाकशालाका विधान ।

प्रशस्तदिग्देशकृतं शुचिभाण्डं महा-
शुचि । सजालकं गवाक्ष्याढ्य-
मात्मवर्गनिषेवितम् ॥ ५ ॥ विकृक्ष
सृष्टसंसृष्टं सवितानं कृतार्चनम् । प-
रीक्षतस्त्रीपुरुषं भवेच्चापि महानसम्
॥ ६ ॥ महानसिकवोढारः सौपोद-
निकपौपिकः । भवेयुर्वैद्यवशगा ये
चाप्यन्ये तु केचन ॥ ७ ॥

पाकशाला उत्तमदेशमें और श्रेष्ठ दिशा उत्तर
या पूर्वकी ओर मुखवाली होनी चाहिये ।
उसमें भोजन बनानेके पात्र रखसैं मँजकर
जलसे अत्यन्त शुद्ध करके रखे । वान्धव जनोसे
युक्त, उसके द्वारपर परदा अथवा वस्त्र लटका
देवे, जिससे कि उसमें मच्छर मक्खी आदि प्रवेश
न कर सकें और प्रकाशके लिये तथा धूम्र निकलनेके
लिये जाली, झरोखे, रोशनदान आदि बनवा देवे ।
फिर उसमें अग्निका पूजन तथा हवनादिक करे और
परीक्षा किये हुए आत्मीय जनोंको या अन्य स्त्रीपुरु-
षोंको उसमें कार्यके लिये नियुक्त करे । पाक बनाने-
वाले तथा अन्यान्य कार्य करनेवाले और दाल,
भात, पूरी, कचौरी आदि बनानेवाले सब कर्मचारी
वैद्यके आज्ञानुसार होने चाहिये ॥ ५-७ ॥

विषके लक्षण ।

स्थावरं जङ्गमश्चैव द्विविधं विषमुच्य-
ते । मूलाद्यात्मकमाद्यं रयात्परं सर्पा-
दिसम्भवम् ॥ ८ ॥

स्थावर और जंगम इन भेदोंसे विष दो प्रकारका
कहा गया है । इनमें वृक्षादिककी जडके विषको
स्थावर और सर्पादिकमें उत्पन्न विषको जंगम विष
कहते हैं ॥ ८ ॥

स्थावरश्च ज्वरं हिक्कां दन्तवर्षं ग-
लप्रहम् । फेनछर्द्यरुचिश्वासं मूर्च्छांश्च
कुरुते विषम् ॥ ९ ॥

स्थावर विष-ज्वर, हिचरी, दन्तवर्ष, गलेमें पीडा,
झागोंका डालना, वमन, अरुचि, श्वास और मूर्च्छा-
को करता है ॥ ९ ॥

निद्रां तन्द्रां क्लमं दाहं सपाकं लोम-
हर्षणम् । शोथं चैवातिसारश्च कुरुते
जङ्गमं विषम् ॥ १० ॥

जंगम विष-निद्रा, तन्द्रा, ग्लानि, दाह, पाक,
रोमांचका होना, सूजन और अतिसारको उत्पन्न
करता है ॥ १० ॥

विष देनेवालेके लक्षण ।

इद्धितज्ञो मनुष्याणां वाक्चेष्टामुख-
वैकृतैः । जानीयाद्विषदातारमेभि-
लिङ्गैश्च बुद्धिमान् ॥ ११ ॥ न ददा-
त्युत्तरं पृष्ठो विवक्षुर्मोहमेति च ।
अपार्थं बहुसंकीर्णं भाषते चापि मू-
ढवत् ॥ १२ ॥ हसत्यकस्मात्स्फोटये-
दङ्गुलीर्विलिखेन्महीम् । वेपथुश्चास्य
भवति व्रत्तश्चैकैकभीक्षते ॥ १३ ॥
विवर्णवक्रोऽध्यामश्च नखैः किञ्चि-
च्छिनत्यपि । वर्त्तते विपरीतश्च विष-
दाता विचेतनः ॥ १४ ॥

प्रायः राजा और बड़े मनुष्योंको उनके शत्रुसे-
वक अन्नादिकमें विष मिलाकर देते हैं इसलिये उस
विष देनेवालेके लक्षण लिखते हैं:—

मनुष्योंके अभिप्रायको जाननेवाले, बुद्धिमान
पुरुष वाणी, चेष्टा और मुखकी विकृतिसे तथा नाँचे
लिखे अन्यान्य लक्षणोंसे विष देनेवालेको जानलेवे ।
विष देनेवाला पूँछनेपर अपने दुष्टकर्मकी बेहोशीसे
उत्तर नहीं देता और जो मनको रोककर बोलता है
तो बोला नहीं जाता, घबरा जाता है अथवा मूर्खके
समान बहुत व्यर्थ तथा गिडगिडाकर वचन बोलता
है, अकस्मात् हँसता है, भयमें उत्पन्न हुई सन्धियोंकी
पीडाको दूर करनेके लिये अँगुलियोंको चटकता है
पृथ्वीको लिखता या खोदता है, कौपता है, भयभीत
होकर एक एक मनुष्यकी ओर देखता है, रंकके
समान वारंवार बालोंको हाथसे छूता है, दरवाजेको
ठोडकर दूसरे मार्गसे जानेकी वारंवार चेष्टा करता
है, मुखका रंग बदलजाता है या जलेके समान रंग
होजाता है, नखोंसे तृण आदिको तोडता है, विपरीत
कामोंकी इच्छा करता है और उन्मत्त होकर

इधर उधर देखता है । ये सब विष देनेवालेके लक्षण हैं ॥ ११-१४ ॥

विषयुक्त अन्नकी परीक्षाका प्रकार ।
नृपभुक्ते भ्रुवि न्यस्ते कौश्वश्च मदमि-
च्छति । हृष्येन्मयूरस्तद्दृष्ट्वा क्रोशतः
शुकशारिके ॥ १५ ॥ हंसः क्रीडति
चात्यर्थं भृङ्गराजस्तु कूजति । शुन-
को विसृजत्यश्रु विष्टां मुञ्चति मर्क-
टः १६ ॥

राजाके भोजनको परीक्षाके लिये पृथ्वीमें डाले,
जो उसमें विष मिला होता है तो उसको देख कर
कौंचपक्षी मर्कटको प्राप्त होजाता है, मयूर उसको
देखकर उन्मत्त होजाता है, तोता और मैना उसको
देखकर रोते हैं, हंस क्रीडा करता है, भृङ्गराज अत्य-
न्त कूजता है, शुनक पक्षी आंसू डालता है और उस
भोजनको देखनेसे बन्दरको दस्त होने लगते हैं ॥
॥ १५ ॥ १६ ॥

उपक्षिप्तस्य चान्नस्य बाष्पान्यर्थं वि-
सर्पते । हृत्पीडोष्णश्च नेत्रत्वं शिरो-
दुःखश्च जायते ॥ १७ ॥

थालीमें परोसेहुए उम विषमिश्रित अन्नकी वाफके
लगनेसे हृदयमें पीडा, नेत्रोंमें उष्णता और शिरोवि-
कार उत्पन्न होता है ॥ १७ ॥

विषरोगकी चिकित्सा ।

तत्र स्यादअने कुष्ठं लामज्जं नलदं
मज्जु । कुय्याच्छिरीषरजनीचन्दनैश्च
प्रलेपनम् । हृदि चन्दनलेपश्च कृत्वा
वै सुखमाप्नुयात् ॥ १८ ॥

उस समय कूठ, लामज्जकतृण, खस और शहद
इन सबको एकत्र पीसकर नेत्रोंमें आजे तथा शिरस
हलदी और चन्दन इनको पीसकर लेप करे और
हृदयपर चन्दनका लेप करे तो सुखकी प्राप्ति होती
है ॥ १८ ॥

प्राणिप्राप्तं पाणिदाहं नखशान्तिं क-
रोति च ॥ तत्र प्रलेपे श्यामेन्द्रगो-
पीश्यामोत्पलानि च ॥ १९ ॥

जब विष मनुष्यके हाथमें पहुचता है तब हाथमें
दाह होती है और नख गिरने लगते हैं । उस समय

निसोत, दोनोप्रकारकी शारिवा और कमल इनका
लेप करना चाहिये ॥ १९ ॥

प्रमादान्मोहतोचेतास्तदन्नमुपसेवते ।
॥ २० ॥ ततोऽस्याष्ठीलवजिह्वा
भवत्यरसवेदिनी । तुद्यते दह्यते वा-
पि श्लेष्मा चास्ये प्रवर्तते ॥ २१ ॥
तत्र बाष्पेरितं कर्म यश्च स्याद्वा-
तुकर्षितम् ॥ २२ ॥

जो असावधानीसे या अज्ञानतासे विषको भक्षण
करलेते हैं उनकी जिह्वा पत्थर अथवा लकड़ीके
समान जकड़ जाती है, इस लिए उस समय वे जो
अन्न खाते हैं उसके रसका ज्ञान नहीं रहता तथा
तोड़नेसरीखी पीडा और दाह होती है, और मुखके
द्वारा कफ गिरने लगता है । इस अवस्थामें वाफके
द्वारा जो शिरीपाठिका लेप कहा है वह करे और
धातुको अपकर्षण करनेवाले कर्म करे ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥

मूर्च्छाच्छिर्भ्रमोदाहमाध्मान्कम्पवे-
पथुः । इन्द्रियाणां च वैकृत्यं कुय्या-
दामाशये गतम् ॥ २३ ॥

जब विष आमाशयमें प्राप्त होजाता है तब मूर्च्छा,
वमन, भ्रम, दाह, अफारा, गलानि, कम्प और इन्द्रि-
योंमें विकृति होती है ॥ २३ ॥

तत्राशु मदनालाबुविश्वघोषवतीफ-
लैः । छर्दनं दध्युदाश्विद्रचामथवा तंडु-
लांबुना ॥ २४ ॥

इस अवस्थामें शीघ्र ही मैनफल, तोम्बी, सोंठ,
कडवीतोरई, दही, उदुम्बिद, (तक्रका भेद) अथवा
चावलोका जल इनके द्वारा वमन करावे ॥ २४ ॥

कोशात्तत्र्यग्निकः पाठा सूर्यवर्णा-
मृताभया । शैलं शिरीषकिणही
हरिद्रे बृहतीद्वयम् ॥ २५ ॥

तोरई, चीता, पाठ, हुलहुल, गिलोय, हरद,
गिलारस, शिरस, कटभी, हलदी, दारुहलदी और
दोनो प्रकारकी कटेरी इनके द्वारा वमन करावे ॥ २५ ॥

स्थावराविषके सामान्यकार्य ।

उद्वेष्टनं मूलविषैः प्रलापो मोह एव
च । जृम्भणं वेपनं श्वासो ज्ञेयं पत्र-
विषेण तु ॥ २६ ॥

मूलविषको भक्षण करनेसे शरीरमे ऐठ, प्रलाप (वृथा वकवाद) और बेहोशी होती है । पत्रविषको भक्षण करनेसे जंभाईयोका आना, कंप और उवास होता है ॥ २६ ॥

मुष्कशोथः फलविषैर्दाहोऽन्नद्वेष एव च । भवेत्पुष्पविषैश्छर्दिराधमानं श्वास एव च ॥ २७ ॥

फलविषको भक्षण करनेसे अण्डकोशोमे सूजन, दाह और भोजनमे अरुचि होती है । फूलविषको भक्षण करनेसे वमन, अफारा और श्वास होता है २७

त्वक्सारनिर्यासविषैरुपयुक्तैर्भवन्ति हि । आस्यदौर्गन्धपारुष्यशिरोरुक्कफसंस्त्रवाः ॥ २८ ॥

छाल, सार और गोदके विषको भक्षण करनेसे मुखमे दुर्गन्ध, शरीरमे रुक्षता, कठिनता, शिरमे पीडा और कफका स्राव होता है ॥ २८ ॥

क्षीरविषके कार्य ।

फेनागमः क्षीरविषैर्विड्भेदो गुरु-जिह्वता ।

क्षीरविषको खानेसे मुखमें झागोका आना, दस्तों का होना और जिह्वामें जडता होती है ।

धातुविषके कार्य ।

हृत्पीडनं धातुविषैर्मूर्च्छा दाहश्च तालुभिः ॥ २९ ॥

धातुविषको खानेसे हृदयमे पीडा, मूर्च्छा और तालुवेमे दाह होती है ॥ २९ ॥

प्रायेण कालघातीनि विषाण्येतानि निर्दिशेत् ॥ ३० ॥

उपर्युक्त मूल आदि नव विषको विशेष कर खानेसे कालान्तरमे मृत्यु होती है ॥ ३० ॥

विषलितशस्त्रहतके लक्षण ।

सद्यः क्षतं पच्यते यस्य जन्तोः स्वबे-द्रक्तं पच्यते चाप्यभीक्षणम् । कृ-ष्णीभूतं क्लिन्नमत्यर्थप्रति क्षतान्मांसं शीर्यते यस्य वापि ॥ ३१ ॥ तृष्णा मूर्च्छा ज्वरदाहौ च यस्य दिग्धाहत-

न्तं मनुजं व्यवस्येत । लिङ्गान्येतान्येव कुर्यादमित्रैर्व्रणे विषं यस्य दत्तं प्रमादात् ॥ ३२ ॥

जिस मनुष्यका घाव तत्काल पकजाय उस घावमसे रुधिर बहै, और वारम्बार पके। तथा जिसके घावमेंसे काला, सडा हुआ और अत्यन्त दुर्गन्धित मांस गलकर गिरे । एवं जिसके तृषा, मूर्च्छा, ज्वर और दाह हो तो उसके विषमे बुझाये हुए अथवा विषसे लिप्त हुए शस्त्रका घाव जानना । जिसके व्रणमें शत्रुने कपट करके विष लगा दिया हो, उस घावके भी ऐसे ही लक्षण जानने ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

विषपानके लक्षण ।

सवातं गृहधूमाभं पुरीषं योऽतिसा-र्यते । फेनमुद्ग्रहते चापि विषपीतं तमादिशेत् ॥ ३३ ॥

जिसके अपानवायुके साथ घरके धुंयेकी समान वर्ण वाले दस्त हों और जो झागोंको डाले तो उसके विष पीनेके लक्षण जानने ॥ ३३ ॥

जङ्गमविषलक्षण ।

सबसे प्रथम सर्पविषके लक्षण कहते हैं ।

वातपित्तकफात्मानो भोगीमण्डल राजिलाः । यथाक्रमं समाख्याता-द्व्यंतरा द्वंद्वरूपिणः ॥ ३४ ॥

मुख्यतासे प्रायः भोगी, मण्डली और राजिल इस प्रकार तीन जातिके सर्प है । इनमेसे भोगीसर्प वातप्रकृतिवाले है, मण्डलीसर्प पित्तकी प्रकृतिवाले हैं और राजिलसर्प कफकी प्रकृतिवाले है। और जो एक जातिके सर्पसे दूसरी जातिकी सर्पिणीमें उत्पन्न (जैसे कि भोगी जातिके सर्पसे मण्डलीजातिकी सर्पिणीमे उत्पन्न) हुआ हो तो वह मिश्रितप्रकृतिवाले अर्थात् द्वन्द्वज होते हैं ॥ ३४ ॥

(१) फणिनो भोगिनो जेया' सख्यातास्तेऽत्र विंशति' । मण्डलावविधैश्चित्रा पृथवो मन्दगामिन ॥ पृ० ते मण्डलिनो जेयाज्वलनार्कचिपा स्मृता । स्निग्धा विविधवर्णाभिस्तिर्यग्वर्ध्व राजिभिः । विचित्रा इव थे भाति राजिलास्तेहि तेऽपि पय

दंशो भोगिकृतः कृष्णः सर्ववातवि-
कारकृत् । पीतो मण्डलिनो शोथो
मृदुः पित्तविकारवान् ॥ ३५ ॥ राजि-
लोत्थो भवेदंशः स्थिरशोथश्च पि-
च्छलः । पांडुः स्निग्धोऽतिसान्द्रासृक्
सर्वश्लेष्मविकारवान् ॥ ३६ ॥

भोगीसर्पका काटा हुआ स्थान-काला होजाता है और सर्वप्रकारके वायुके विकारोंको उत्पन्न करता है मण्डलीसर्पका काटाहुआ स्थान-पीला, सूजन युक्त, नरम और सम्पूर्ण पित्तके विकारोंको उत्पन्न करता है । राजिलसर्पका काटाहुआ स्थान-काठिन, सूजन-युक्त, पिच्छल, पांडुवर्ण और चिकना होता है । उसमेंसे अत्यन्त गाढा रुधिर निकलता है और वह सर्वप्रकारके कफके विकारोंको उत्पन्न करता है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

विषके दशगुण ।

लघ्वव्यक्तरसं सूक्ष्मं रूक्षणोष्णाशुव्य-
वायि च । विकासि विशदं तीक्ष्णं
विषं दशगुणं स्मृतम् ॥ ३७ ॥

लघु, अव्यक्तरस, सूक्ष्म, रूक्ष, उष्ण, आशु व्य-
वायि, विकासि, विशद और तीक्ष्ण ये दश गुण
विषमें रहते हैं ॥ ३७ ॥

मघाद्राकृतिकाश्लेषाभरणीषु प्रयत्नतः ।
पूर्वासु मर्मदष्टस्य कस्यचिज्जीवनं
भवेत् ॥ ३८ ॥

मघा, आर्द्रा, कृतिका, आश्लेषा, भरणी, पूर्वा-
पाढा, पूर्वाफाल्गुनी और पूर्वाभाद्रपदा इन नक्षत्रोंमें
काटा हुआ अथवा मर्मस्थानोंमें काटा हुआ कदा-
चित् कोई रोगी जीता है ॥ ३८ ॥

नवमी पञ्चमी षष्ठी तथा कृष्णचतु-
र्दशी । चतुर्थी सन्धिके द्वे च दष्टा
एषु न जीविताः ॥ ३९ ॥

नवमी, पञ्चमी, षष्ठी, कृष्णाचतुर्दशी और चतुर्थी
इन तिथियोंमें काटाहुआ एवं दोनों संधियों अर्थात्
संध्याके समय और प्रभातके समयमें कटेहुए मनुष्य
नहीं जीते हैं ॥ ३९ ॥

विषरोगकी सामान्याचिकित्सा ।

चन्दनं- वृषणच्छेददाहस्त्रावाः प्रकी-

र्त्तिताः । पूर्वं दष्टस्य पानश्च हृदया-
वरणं घृतम् ॥ ४० ॥

सर्पके काटनेपर प्रथम चंदनका प्रयोग फिर अड-
कोपोंको छेदना, दागदेना और रुधिर निकलवाना
चाहिए । एवं हृदयको आवरण करनेवाले घृतादिक
पान करे ॥ ४० ॥

देश और कालकी विशेषतासे सर्प-
दंशको असाध्यत्व कहते हैं ।

अश्वत्थदेवायतनश्मशानवलमीकस-
न्ध्यासु चतुष्पथेषु । याम्ये च दष्टाः
परिवर्जनीया ऋक्षे नरा मर्मसु ये च
दष्टाः ॥ दर्वाकिराणां विषमाशु घा-
ति सर्वाणि चोष्णे द्विगुणीभवन्ति
॥ ४१ ॥ अजीर्णपित्तश्रमपीडितेषु
बालेषु वृद्धेषु बुभुक्षितेषु । क्षीणे क्षते
मेहानि कुष्ठजुष्टे रूक्षेऽबले गर्भवतीषु
चापि ॥ ४२ ॥ शस्त्रक्षते यस्य न
रक्तमस्ति राज्यो लताभिश्च न संभ-
वन्ति । शीताभिरद्भिश्च न रोमहर्षो
विषाभिभूतं परिवर्जयेत्तम् ॥ ४३ ॥

पीपलके वृक्षके नीचे, देवमन्दिरमें, श्मशानमें,
वांश्रीमें, सन्ध्या समयमें, चौराहेमें, तथा भरणी,
मघा, आर्द्रा, आश्लेषा, मूल और कृतिकादिनक्षत्रोंमें
तथा पंचमी आदि तिथियोंमें और शिरागत मर्मस्था-
नोंमें सर्प काटे तो वह मनुष्य नहीं जीता है । दर्वा-
कर सर्पका काटा हुआ मनुष्य तत्काल प्राणोंको
त्याग देता है । प्रायः सर्वप्रकारके विष उष्णतासे
अर्थात् गरमीमें दूना जोर करते हैं । जो मनुष्य अ-
जीर्ण, पित्त और श्रमसे पीडित, तथा वाकक, वृद्ध,
भूखा, क्षीण, क्षतरोगी, प्रमेहरीोगी, कुष्ठरोगी, रुखे
शरीरवाला, निर्बल, गर्भवती स्त्री, जिसके गछ लगने
से भी रुधिर नहीं निकले, यावुक मारनेपर शरीरपर
नहीं उछले और जिसके शरीरपर ग्रीतल जल डाल-
नेसे रोमांच न हो उस सर्पके डसे हुए मनुष्यकी
चिकित्सा न करे अर्थात् उसको असाध्य समझ कर
वैद्य त्याग देवे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

जिहां मुखं यस्य च केशशातो नासा-
वसादश्च सकण्ठभङ्गः । कृष्णः सरक्तः

श्वयथुश्च दंशो हन्वोः रिथरत्वश्च स
वर्जनीयः ॥ ४४ ॥

जिस मनुष्यका मुख टेढा होजाय, केश स्पर्श करनेसे टूट टूट कर गिरें, नाक टेढी पडजाय, गर्दन झुकजाय, अथवा स्वरभंग होजाय, डसनेकी जगह लाल अथवा काली सूजन युक्त हो और ठोढी कठिन हो, ठोढीका भाग जकड़ जाय अर्थात् मुख नहीं खुले उसको वैद्य त्याग देवे ॥ ४४ ॥

वर्तिर्घना यस्य निरोति वक्राद्रक्तं स्र-
वेदूर्ध्वमधश्च यस्य । दंष्ट्राभिघाताश्च-
तुरश्च यस्य स चापि वैद्यैः परिवर्ज-
नीयः ॥ ४५ ॥

जिस मनुष्यके मुखसे लारकी गाढी बत्तीसी गिरं, ऊर्ध्व (मुख, नासिका, कर्ण, नेत्र इत्यादि) और अधो (गुदा, छिग, योनि इत्यादि) मार्गसे रुधिर गिरे और जिसके वरावर २ चार दाँत लगे हो उसको भी वैद्य त्याग देवे ॥ ४५ ॥

उन्मत्तमत्यर्थमुपद्रुतश्च हीनस्वरं वाप्य-
थवा विवर्णम् । सारिष्टमत्यर्थमवेगि-
नश्च जह्यान्नरं यत्र न कर्म कुर्यात्
॥ ४६ ॥

जो मनुष्य विषकी व्याकुलतासे अत्यन्त मत्त अर्थात् बावलासा होजावे तथा ज्वर अतिसारादि उपद्रवोंसे युक्त हो, जिसका स्वर क्षीण होगया हो, शरीरका रंग बदल गया हो, मृत्युके लक्षणोंसे युक्त और जिसके मलमूत्र बंद होगये हो अथवा वेग अर्थात् लहर न उठे ऐसे सांपके काटे हुए मनु-
ष्यको त्याग देवे ॥ ४६ ॥

दूषीविषके लक्षण ।

जीर्णं विषघ्नौषधिभिर्हतं वा दावा-
ग्निवातातपशोषितं वा । स्वभाव-
तो वा गुणविप्रहीनं विषं हि दूषीवि-
षतामुपैति ॥ ४७ ॥

जो विष अत्यन्त पुराना होगया हो, अथवा विष-
नाशक औषधियोंसे हीनवीर्य्य कियागया हो, अथवा दावाग्नि, वायु और धूपसे सूख गया हो, या सर्दी, गरमीसे बिगड़ गया हो अथवा स्वाभाविक दशगुणों

मेसे एक, दो या तीन चार गुणोंसे रहित होगया हो तो उसको दूषीविष कहते हैं ॥ ४७ ॥

दूषीविषके कार्य ।

वीर्याल्पभावात् निपातयेत्तत्कफा-
न्वितं वर्षगुणालुबांधि । तेनादितो
भिन्नपुरीषवर्णो विंगधवैरस्ययुतः पि-
पासी ॥ मूर्च्छां भ्रमं गद्गदवान्त्वमि-
त्वं विचेष्टमानोऽरतिमाप्नुयाद्वा ॥ ४८ ॥

यह दूषीविष हीनवीर्य्य होनेके कारण मारता तो नहीं है, किन्तु कफसे, उष्णादिगुणोंके मद् होनेके कारण एवं अग्निकी मंदता होनेसे यह विष नहीं पचनेके कारण बहुत दिनोंतक शरीरमें रहता है । दूषीविषसे पीडित मनुष्यके दस्त पतला आता है, मुखमें दुर्गंध और शरीरका रंग बदल जाता है, नीरसता होतीहै एवं, तृषा, मूर्च्छा, भ्रम, वाणीमें गद्गदपन और वमनये सब रोग होते हैं । वह विरुद्ध चेष्टा करता है और उसे चैन नहीं मिलता ॥ ४८ ॥

स्थानविशेषसे उत्पन्न

दूषीविषके लक्षण ।

आमाशयस्थे कफवातरोगी पक्का-
शयस्थेऽनिलपित्तरोगी । भवेत्समु-
द्धस्तशिरोरुहांगो विल्लनपक्षस्तु
यथा विहङ्गः ॥ ४९ ॥

दूषीविष आमाशयमें प्राप्त होनेपर कफ और वायुके रोगोंको उत्पन्न करता है । पक्काशयमें प्राप्त होकर वात और पित्तसम्बन्धीरोगोंको उत्पन्न करता है । और जब यह दूषीविष शिरके बाल और रोमोंमें प्राप्त होता है तब पखरहित पक्षीके समान कर देता है ॥ ४९ ॥

स्थितं रसादिष्वथवा यथोक्तान्क-
रोति धातुप्रभवान्विकारान् ।

जब यह दूषीविष रसादिधातुओंमें प्राप्त होता है तो सुश्रुतके सूत्रस्थानके व्याधिसमुद्देशीयनामके चौबीसवे अध्यायमें कहे अनुसार धातुसम्बन्धी-
विकारोंको करता है ।

दूषीविषके प्रकोपका समय ।

कोपश्च शीतानिलदुर्दिनेषु यात्याशु
पूर्व शृणु तस्य रूपम् ॥ ५० ॥

यह दूषीविष अत्यंत शीतके समय, अत्यंत पवन चलनेके समय और मेघोंसे घिरे हुए दिनमें तत्काल प्रकोपको प्राप्त होता है । अब प्रकुपित दूषीविषके पूर्वरूपको कहता हूँ, सो सुन ॥ ५० ॥

प्रकुपितदूषीविषके पूर्वरूप ।

निद्रागुरुत्वश्च विजृम्भणश्च विश्लेष-
हर्षावथवाङ्गमर्दम् ।

निद्रा, शरीरमें भारीपन, जंभाइयोंका आना, अंगोंमें शिथिलता, रोमांचोंका होना और अगोंका दृटना, ये प्रकुपित दूषीविषके पूर्वरूप है ।

प्रकुपितदूषीविषके रूप ।

ततः करोत्यन्नमदाविषाकावरोचकं
मण्डलकोठजन्म ॥ ५१ ॥ मांसक्षयं
पादकरप्रशोथं मूर्च्छान्तथा छर्दिम-
थातिसारम् । दूषीविषं श्वासतृषा-
ज्वरांश्च कुप्यर्थात्प्रवृद्धिं जठरस्य चा-
पि ॥ ५२ ॥

प्रकोपको प्राप्त हुआ दूषीविष, अन्नको भोजन करनेपर सुपारीके समान मदको करता है, अन्नको पचने नहीं देता, तथा अस्वचि, शरीरमें चकत्ते और गांठोंको उत्पन्न करता है । मांसक्षय, हाथ पांजोंमें सूजन, मूर्च्छा, वमन, अतिसार, श्वास, तृषा, ज्वर और उदरको बढ़ाता है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥

दूषीविषके भेदोंसे विकारभेद ।

उन्मादमन्यजनयेत्तथान्यदानाहम
न्यत्क्षयते च शुक्रम् । गद्गदमन्यज-
नयेच्च कुष्ठं तांस्तान्विकारांश्च बहु-
प्रकारान् ॥ ५३ ॥

कोई दूषीविष उन्मादको उत्पन्न करता है । कोई दूषीविष आनाहको उत्पन्न करता है । कोई दूषीविष वीर्यको क्षीण करता है । कोई दूषीविष वाणीको गद्गद करता है । कोई दूषीविष कुष्ठको उत्पन्न करता

है और कोई दूषीविष विसर्प और विस्फोटकादि रोगोंको उत्पन्न करता है ॥ ५३ ॥

दूषीविषशब्दकी निरुक्ति ।

दूषितं देशकालान्नदिवास्वप्नैरभी-
क्षणशः । यस्मात्सन्दूषयेद्घातूंस्तस्मा-
द्दूषीविषं स्मृतम् ॥ ५४ ॥

देश, काल, अन्न और दिनकी निद्राके कारण दूषित हुआ विष बारंबार धातुओंको दूषित करता है, इस कारण इसको दूषीविष कहते हैं ॥ ५४ ॥

दूषीविष साध्य याप्य और असाध्य ।

साध्यमात्मवतः सद्यो याप्यं संब-
त्सरोषितम् । दूषीविषमसाध्यं स्या-
त्क्षीणस्याऽहितसेविनः ॥ ५५ ॥

दूषीविष जितेन्द्रिय अर्थात् पथ्य सेवन करनेवाले मनुष्यको तत्काल साध्य होता है । एक वर्षके पश्चात् याप्य होजाता है और क्षीण तथा अपथ्य सेवन करनेवाले मनुष्यके दूषीविष असाध्य होता है ॥ ५५ ॥

अथ गरविष ।

सौभाग्यार्थं द्वियः स्वेदरजोनाना-
ङ्गजान्मलान् । शत्रुप्रयुक्तान्श्च मलान्प्रय-
च्छन्त्यन्नमिश्रितान् ॥ ५६ ॥ तैः स्यात्पां-
डुः कृशोऽल्पाग्निः गरश्चास्योपजा-
यते । मर्मप्रधमनाधमानं हस्तयोः
शोथलक्षणम् ॥ ५७ ॥ जठरं ग्रहणी-
रोगो यक्ष्मगुल्मयकृज्ज्वराः । एवं-
विधेस्य चान्यस्य व्याधेल्लिङ्गानि
निर्दिशेत् ॥ ५८ ॥

द्विये पतिको व्रतमें करनेके लिये, पसीना, रज और अंगके अनेकमलोका भोजनमें मिलाकर पतियोंको खिलादेती है । तथा शत्रुभी इसी प्रकारके पदार्थोंको भोजनमें मिलाकर मनुष्योंको खिलादेते हैं । यह पसीना आदि अधम पदार्थ गर कहाते हैं । पसीना तथा रज आदि गरस पांडुता होती है, शरीर कृश होजाता है, अग्नि मंद हो जाती है, गरदोष उत्पन्न होजाता है, ज्वर आता है, मर्मस्थानोंमें

पीडा होती है, अफारा होता है, धातुक्षय और हाथों-में सूजन होती है तथा उदररोग, संग्रहणी, राजय-द्वमा, गुल्म, यकृत और ज्वर एवं इसीप्रकार और भी अनेकरोगोंके लक्षण होते हैं ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥

अथ लूताविषकी उत्पत्ति
और निरुक्ति ।

यस्माल्लूनं तृणं प्राप्ता मुनेः प्रस्वेद-
विन्दवः । तस्माल्लूताः प्रभाषन्ते
संख्ययास्ताश्च षोडश ॥ ५९ ॥

जब वसिष्ठजीकी गायको विश्वाभिन्न बलात्कारसे लेकर चले तब वसिष्ठजीके क्रोधसे मस्तकमे पसीना आया, उससमय उस पसीनेके जो विन्दु घासपर गिरे उनसे जो जीव उत्पन्न हुये लूता कहे जाते हैं। लूताकी सोलह जाति है। "लु" इस धातुका अर्थ काटनेका है ॥ ५९ ॥

ताभिर्दष्टे दंशकोथ प्रवृत्तिः क्षतज-
स्य च । ज्वरो दाहोऽतिसारश्च ग-
दाः स्युश्च त्रिदोषजाः ॥ ६० ॥ पि-
डिका विविधाकारा मण्डलानि
महान्ति च । शोथा महान्तो मृदवो
रक्ताः श्यावाश्चलास्तथा ॥ सामान्यं
सर्वलूतानामेतदंशस्य लक्षणम् ॥ ६१ ॥

लूताके काटने पर स्थान सडजाता है, रुधिर बहने लगता है, एवं ज्वर, दाह, अतिसार और त्रिदोषजनित रोग होते हैं, अनेकप्रकारकी फुन्सियें उत्पन्न होती हैं, बडे २ चकत्ते पडजाते हैं, और बडी गम्भीर, कोमल, लाल, चंचल तथा कलौसयुक्त सूजन होती है । यह लूतादंशके सामान्य लक्षण हैं ॥ ६० ॥ ६१ ॥

दंशमध्ये तु यत्कृष्णं श्यावं वा जा-
लकावृतम् । ऊर्ध्वाकृति भृशं पाकं
क्लेदकोथज्वरान्वितम् ॥ सर्पाणामेव
विण्मूत्रशवकोथसमुद्भवाः । दूषी-
विषाश्च कृमय इति संक्षेपतो मताः ॥
दूषीविषाभिर्लूताभिस्तं दष्टमिति
निर्दिशेत् ॥ ६२ ॥ शोथाः श्वेता-
सिता रक्ताः पीताः सपिडिका

ज्वराः । प्राणान्तिकाभिर्जायन्ते
श्वासहिकाशिरोग्रहाः ॥ ६३ ॥

जो कटाहुआ स्थान काला तथा लाल, काले, पीले, मिले हुए तीनों रंगका हो, जालके समान ढकाहुआ, ऊँचा, ग्रीघ्र पकनेवाला, सदैव भीजा, सफेद राध वहानेवाला तथा ज्वरयुक्त हो उसको दूषीविषवाली लूतासे कटाहुआ जानना । साँपोंके मलमूत्रके संयोगसे अथवा मरेहुए साँपके शरीरके सडजानेसे दूषी-विषके कृमि उत्पन्न होते हैं । वे प्राणनाशक हैं । उनसे काटे हुए स्थान सूजनयुक्त, सफेद, काले, लाल, पीले और फुन्सिययुक्त होते हैं तथा ज्वर, श्वास, हिचकी और गिरपीडा ये सब रोग होते हैं ॥ ६२ ॥ ६३ ॥

आखुदूषावषक लक्षण ।

आदंशाच्छोणितं पांडु मण्डलानि
ज्वरोऽरुचिः । रोमहर्षश्च दाहश्चाप्या-
खुदूषीविषादिते ॥ ६४ ॥

जिस चूहेके काटनेसे रुधिर पीला पडजाय, गरी-रमे चकत्ते उठआव, ज्वर, अरुचि, रोमांचका होना और दाह हो तो उसको दूषीविषवाले मूसेसे काटा हुआ जानना ॥ ६४ ॥

असाध्यमूसेके लक्षण ।

मूर्च्छाङ्गशोथवैवर्ण्यक्लेदशब्दाऽश्रुति-
ज्वराः । शिरोगुरुत्वं लालासृक्
छर्दिश्वासाध्यमूषिकैः ॥ ६५ ॥

जिस मूसेके काटनेसे मूर्च्छा, शरीरमें सूजन, विवर्णता, क्लेद, शब्दका यथार्थ न सुन सकना, ज्वर, शिरमे भारीपन, लारका गिरना और रुधिरकी बम-नका होना ये लक्षण हो तो उसको विपले मूसेसे काटा हुआ जानना, वह रोगी असाध्य होता है ६५ ॥

कृकलासदष्टके लक्षण ।

काश्यं श्यावत्वमथवा नानावर्णत्व-
मेव च । व्यामोहो वर्चसो भेदो
दष्टः स्यात्कृकलासकैः ॥ ६६ ॥

करकैटे अर्थात् गिरगिटका काटा हुआ स्थान काला, अथवा लाल और काले रंगका, अथवा अनेक रंगका होता है तथा वेहोशी और दस्त होते हैं ॥ ६६

वृश्चिकदष्टके लक्षण ।

दहत्यग्निरिवादौ तु भिनत्तीवोर्ध्वमा-
शु च । वृश्चिकस्य विषं याति दंशे
पश्चान्तु तिष्ठति ॥ ६७ ॥

विच्छूका विष प्रथम अग्निकीसमान दाह करता है फिर शीघ्र ही ऊपरको चढकर अंगोको तोडनेके समान पीडा करता है । फिर काटनेके स्थानमें आकर विच्छूका विष स्थिर होजाता है ॥ ६७ ॥

असाध्यवृश्चिकदष्टके लक्षण ।

दष्टोऽसाध्यस्तु हृद्घ्राणरसनोपहतो
नरः । मांसैः पतद्भिरत्यर्थं वेदनात्तो
जहत्यसृन् ॥ ६८ ॥

जिस मनुष्यके हृदय, नासिका और जिह्वामें विच्छू डंक मारता है तो उसके मांस गलकर गिरने लगता है, अत्यन्त पीडासे पीडित होकर रोगी प्राण त्याग देता है ॥ ६८ ॥

कणभदष्टके लक्षण ।

विसर्पः श्वयथुः शूलं ज्वरश्छर्दिरया-
पि वा । लक्षणं कणभेदेष्टे दंशश्चैव
विशीर्यते ॥ ६९ ॥

कणभनामक कृमिके काटनेपर विसर्प, सूजन, शूल, ज्वर और वमन होती है तथा काटनेके स्थान-का मांस गल जाता है ॥ ६९ ॥

उच्चिटिंगदष्टके लक्षण ।

हृष्टरोमोच्चिटिङ्गेन स्तब्धलिङ्गो भृशा-
र्तिमान् । दष्टः शीतोदकेनैव सिक्ता-
न्यङ्गानि मन्यते ॥ ७० ॥

उच्चिटिंग अर्थात् झींगरके काटनेसे रोमाच हो आते हैं, लिङ्ग जकड जाता है, अत्यन्त वेदना होती है और सम्पूर्ण शरीर शीतल जलसे भीजनेके समान प्रतीत होता है ॥ ७० ॥

मण्डूकदष्टके लक्षण ।

एकदंष्ट्रादितः शूनः सरुजः पीतकः
सत्तृट् । छर्दिनिद्रा, च सविषैर्मण्डूकै-
र्दष्टलक्षणम् ॥ ७१ ॥

विपले भेंढकके काटनेसे, भेंढकका एक ही दांत लगता है । उस स्थानमें वेदनायुक्त पीलीसूजन होती है, तृपा लगती है, निद्रा आती है और वमन होती है ॥ ७१ ॥

मत्स्यविषके लक्षण ॥

मत्स्यास्तु सविषाः कुर्युर्दाहं शोथं
रुजं तथा ।

विपेलो मछलीके काटनेसे दाह, सूजन और पीडा होती है ।

जलौकाविषके लक्षण ।

कण्डूं शोथं ज्वरं मूर्च्छां सविषास्तु
जलौकसः ॥ ७२ ॥

विपैली जौकके काटनेसे खुजली, सूजन, ज्वर और मूर्च्छा होती है ॥ ७२ ॥

ग्रहगोधिकाके लक्षण ।

विदाहं श्वयथुं तोदं स्वेदश्च ग्रहगो-
धिका ।

छिपकलीके काटनेसे दाह, सूजन, सुई चुभानेसेसी-खी पीडा होती है और पसीना आता है ।

शतपदीके विषके लक्षण ।

दंशे स्वेदं रुजं दाहं कुर्याच्छतपदीवि-
षस्य ॥ ७३ ॥

शतपदी अर्थात् कानखजूरेके काटनेपर काटनेकी जगह पसीना, पीडा और दाह होती है ॥ ७३ ॥

मशकविषके लक्षण ।

कण्डूमान्मशकैरीषच्छोथः स्या-
न्मन्दवेदनः ॥

मच्छरके काटनेपर खुजली और थोड़ी वेदनायुक्त कुछपक सूजन होती है ।

असाध्य मशकदंशके लक्षण ।

असाध्यकीटसदृशमसाध्यं मशकक्ष-
तम् ॥ ७४ ॥

असाध्य विपैला मच्छर काटे तो असाध्य मकोड़े
आदिके समान घावमे पीडा होती है ॥ ७४ ॥

मक्षिकादंशके लक्षण ।

सद्यः प्रस्त्रावणी श्यावा दाहमूर्च्छा-
ज्वरान्विता । पिटकामक्षिकादंशे
तासान्तु स्थगिकाऽसुहृत् ॥ ७५ ॥

विपैली मक्खी काटे तो तत्काल स्याववाली,
काली, दाहयुक्त, मूर्च्छासहित और ज्वरवाली फुसिये
उत्पन्न होती है । सुश्रुतोक्त छः प्रकारकी मक्खियोंमें
स्थगिका नामवाली जो मक्खी कहीं है वह तत्काल
प्राणनाश करती है ॥ ७५ ॥

चतुष्पदादिकोंके विषके
साधारण लक्षण ।

चतुष्पाद्भिर्द्विपाद्भिर्वा मखदन्तविषश्च
यत् । शूयते पच्यते वापि स्रवति
ज्वरयत्यपि ॥ ७६ ॥

चार पात्रवाले व्याघ्रादिक (चौपाई, बाघ, सिंह,
भेडिया, गीदड़ कुत्ता, बन्दर आदि) अथवा दो पात्रवाले
जंगली मनुष्यादिकाके नखोंमें और दांतोंमें आघात
जनित विषसे जो घाव होता है वह सूजजाता है,
पकता है, बहता है और ज्वरको उत्पन्न करता है ॥ ७६ ॥

विष उतरे हुए मनुष्यके लक्षण ।

प्रसन्नदोषं प्रकृतिस्थधातुमन्नाभिका-
मं सममूत्रविट्कम् । प्रसन्नवर्णेन्द्रि-
यचित्तचेष्टं वैद्योऽवगच्छेदविषं मनु-
ष्यम् ॥ ७७ ॥

जब वातादिदोष स्वाभाविक स्थितिमें स्थित
होजायें, सम्पूर्ण धातुमें भी यथास्थानमें स्थित हो-
जायें, अन्नमें रुचि हो, मल, मूत्र पहिलेके अनुसार
अच्छ प्रकारसे उतरने लगे तथा शरीरका रंग, इन्द्रि-
यें, मन और शरीरकी चेष्टा ये सब प्रसन्न अर्थात्
साफ होजायें तो वैद्य उस मनुष्यको विषसे रहित
हुआ जाने ॥ ७७ ॥

चिकित्सा ।

स्थावरेण विपेणार्त्तं नरं यत्नेन वाम-
येत् । वमनेन सप्तं नास्ति यतस्तस्य
चिकित्सितम् ॥ ७८ ॥

स्थावरविषसे पीडित मनुष्यको यत्नपूर्वक वमन
करावे, क्योंकि वमनके समान अन्य अधिक गुणका-
रक औषधि नहीं है ॥ ७८ ॥

विषमत्यर्थमुष्णश्च तीक्ष्णश्च कथितं
यतः । अतः सर्वविषेषूक्तं वातशी-
तांबुसेवनम् ॥ ७९ ॥

विष अत्यन्त उष्ण और तीक्ष्ण है, इस कारण
सर्व प्रकारके विषोंमें शीतल वायु और शीतल
जलका सेवन करना चाहिये ॥ ७९ ॥

पाययेन्मधुसर्पिर्भ्यां विषघ्नं भेषजं
घृतम् । यष्टीक्वाथेन शीतेन घृतं वा
मधुना पिबेत् ॥ ८० ॥

विषनाशक औषधियोंको घी और शहदके साथ
मिलाकर तत्काल पान करावे । एवं मुलैठीके शीतल
काथमे घी अथवा शहद डालकर पान करे ॥ ८० ॥

अथवा गोपुरीषस्य रसेन मधुना सह ।
हृदयावरणं सर्पिर्गवां चैव प्रयोज-
येत् ॥ ८१ ॥

गोवरके रसको शहदमें मिलाकर और हृदयको
आवरण करनेवाले गायके घृतके साथ पान करे ॥ ८१ ॥

रजनीसैन्धवक्षौद्रसंयुक्तं घृतमुत्तमम् ।
पानं मूलाविषार्त्तस्थं दग्धविद्धस्य
चेक्षते ॥ ८२ ॥

हलदी, सैधानमक, शहद और उत्तम घी इन
सबको एकत्र मिलाकर मूलविषसे पीडित और दग्ध
विद्ध (विपादि शस्त्रालिप्तसे हत) मनुष्योंको पान
करावे ॥ ८२ ॥

खादिते खाद्यमाने च खादितव्ये च
यो विषे । अश्वगन्धाजटां भुङ्क्ते तत्र
नैव विषं क्रमेत् ॥ ८३ ॥

विषको खानेपर या खातेहुए अथवा खानेके पश्चान् असंगंधकी जडको भक्षण करनेसे विषका आक्रमण जांत होजाता है ॥ ८३ ॥

तुल्याज्यमधुपानान्ते लघुकोष्ठो घृतं पिबेत् । ततो निम्बाम्बुपानं वा कृत्रिमन्तु विनाशयेत् ॥ ८४ ॥

धी और शहदको समान भाग मिलाकर सेवन कराके प्रथम वमन विरेचनादिके द्वारा कोठेको हलका करे पश्चात् घृतको पान करे । फिर नीमके जलको पान करे तो सर्वप्रकारका कृत्रिमविष नष्ट होता है ॥ ८४ ॥

दोषविशेषसे विषभेदके लक्षण ।

प्रायो वातोत्वणा भेकमूषपिंगाः स-
वृश्चिकाः । वातपित्तोत्वणाः कीटाः
श्लेष्मिकाः कणभादयः ॥ ८५ ॥ य-
स्य यस्य च दोषस्य लिङ्गाधिक्यं
प्रवर्तयेत् । तस्य तस्यौषधैः कुर्या-
द्विपरीतगुणैः क्रियाम् ॥ ८६ ॥

प्रायः मेडक, मूष, मूपिका और वृश्चिक वातो-
त्वण है, कीटादि वातपित्तोत्वण है और कणभ
आदि कफोत्वणवाले हैं । इन उपर्युक्तसर्पवृश्चिकादिके
दशमें जिस जिस दोषके अधिक लक्षण देखे उसमे
उसी उसी दोषके गुणोसे विपरीत गुणोंवाली औ-
षधियोंके द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ८५ ॥ ८६

हृत्पीडा चानलस्तम्भः शिरायाम-
स्थिपर्वरुक् । चूर्णनोद्वेष्टनं गात्रे व्या-
मता वातिके विषे ॥ ८७ ॥

वाताधिक्य विषमे हृदयमें पीडा, अग्निकी मन्दता,
नसो, हड्डियों और संधियोंमें पीडाका होना, शरीरका
धूमना अथवा भ्रमका होना, शरीरका ऐठना और
टेढा होना ये सब लक्षण होते हैं ॥ ८७ ॥

संज्ञानाशस्तु निःश्वासो हृदाहकटु-
कास्यता । दन्तावदारणं शोथो रक्त-
पित्तञ्च पैतिके ॥ ८८ ॥

रक्तीपत्ताधिक्य और पित्ताधिक्य दशमें संज्ञाका
नाश (बेहोशी), श्वासकी बाहुल्यता, हृदयमें दाह

मुखमें कटुता, दांतोंका फटना और सूजन ये सब
लक्षण होते हैं ॥ ८८ ॥

छद्यरोचकहृल्लासप्रसेककेशगौरवैः ।
सशैथ्यमुखमाधुर्यैर्विद्याच्छ्लेष्माधिकं
विषम् ॥ ८९ ॥

श्लेष्माधिक्यदशमें वमन, अरुचि, उवकाई, मुखसे
पानीका गिरना, शरीरमें वाधा, भारीपन, शीतता और
मुखमें मधुरता ये सब लक्षण जाननेचाहिए ॥ ८९ ॥

चिकित्सा ।

घृतेन बहुलो लेपस्तैलाभ्यङ्गश्च वा-
तिके । स्वेदनाढीप्रलेपाद्यैर्वृहणश्च
हितो विधिः ॥ ९० ॥

वातिकदशमें विशेषकर घृतका लेप, तेलकी मालिश,
नाडीस्वेद, अनेकप्रकारके प्रलेप और वृहणविधि ये
सब हितकारी हैं ॥ ९० ॥

सुशीतैस्तम्भयेच्छेकैः प्रदेहैश्चापि पै-
तिके । लेपनच्छेदनस्वेदवमनैः श्ले-
ष्मिकं जयेत् ॥ ९१ ॥

पित्तजदशमें शीतल सेक (परिषेचन) और
प्रलेप करना चाहिये । एव कफजदशको कफनाशक
लेप, छेदन, स्वेद और वमन इन प्रयोगोंके द्वारा
जितना चाहिए ॥ ९१ ॥

शालयः षष्टिकाश्चैव कोरदूषाः प्रि-
यंगवः ॥ भोजनार्थं प्रशस्यन्ते लव-
णार्थं च सैन्धवम् ॥ ९२ ॥

विषरोगीको भोजनके लिये शालिधान, साठीधान,
कोदों और कंगुनी ये सब अन्न तथा नमकके लिये
सैधानमक देवे ॥ ९२ ॥

तंडुलीयकजीवन्तीवार्ताकुः सुनि-
षण्डकः । मंडूकपर्णीकुलकं शाकवर्गे
च शस्यते ॥ ९३ ॥

शाकके लिये चौलाई, बडी जीवन्ती, वैगुन, बथुआ,
ब्रह्ममण्डूकी, ब्राह्मी, मंडूकपर्णी और परवर ये सब
प्रयोग करने चाहिये ॥ ९३ ॥

हरेणुमुद्गौ यूपार्थमम्लार्थं धात्रिदा-
डिमम् । रसार्थञ्च प्रशस्ता वा ला-
वतित्तिरवर्त्तकाः ॥ ९४ ॥

यूपके लिये मटर और मूँग लेवे । खटाईके
लिये आमले और अनार लेवे। और मासरसके लिये
लवा, तीतर और वटेर लेनी चाहिये ॥ ९४ ॥

विषघ्नौषधसंयुक्ता रसा यूषाश्च सं-
स्कृताः। अविदाहीनि चान्नानि वि-
षार्त्तानां च दापयेत् ॥ ९५ ॥

विषरोगियोंको विषनाशक औषधियोंके द्वारा
संस्कार कियेहुए रस और यूप तथा दाहको न कर-
नेवाले अन्न देने चाहिये ॥ ९५ ॥

उष्णवज्यो विधिः कार्यो विषार्त्ता-
नां विज्ञानता । मुक्ता कीटविषं तच्च
शीतेनातिप्रवर्द्धते ॥ ९६ ॥

विषरोगियोंको सम्पूर्ण उष्णविधि त्यागदेनी
उचित है, किन्तु, कीटविषमे उष्णविधि वाजित नहीं
है । क्योंकि, वह शीतसे अत्यन्त बढ़ता है ॥ ९६ ॥

दिवास्वप्नं व्यवायञ्च व्यायामं क्रो-
धमातपम् । सुरातिलकुलित्यांश्च
वर्जयेच्च विषातुरः ॥ ९७ ॥

विषसे पीडित मनुष्य-दिनमें सोना, मैथुन, व्या-
याम (परिश्रम, दंड, फसरत), क्रोध, धूप, मदिरा,
तिल और कुलथी इन सबको त्यागदेवे ॥ ९७ ॥

अथ जङ्गमविषकी चिकित्सा ।

अरिष्टबन्धन ।

सर्वैरेवादितः सर्पैः शाखादुष्टस्य दे-
हिनः । बधीयाद्वाढमुपरि दंशन्तु
चतुरंगुलम् ॥ ९८ ॥ वस्त्रचर्मातव-
ल्कानां मृदुनान्यतमेन च । न ग-
च्छति विषं देहमरिष्टाभिर्निवारि-
तम् ॥ ९९ ॥

जो हाथ, पांव आदिमें सांप काटे तो उस मनुष्यके
उसी समय काटनेकी जगह चार अंगुल ऊपर
वारीक वस्त्र, नरमचर्मा अथवा नरमवृक्षकी छालसे

या रस्सीसे खूब रौचकर बाँध देवे । इस प्रकार
बाँधनेसे फिर विष आनेको शरीरमें नहीं
फैलता ॥ ९८ ॥ ९९ ॥

आचूपणच्छेददाहादिक्रिया ।

दहेदंशमथोत्कृत्य यत्र बन्धो न जा-
यते । आचूपणच्छेददाहाः सर्वत्रैव तु
पूजिताः ॥ १०० ॥ प्रतिपूर्य्यं सुखं
वर्द्धेहितमाचूपणं भवेत् । स दृष्टव्यो-
ऽथवा सर्पो लोष्टश्चापि हि तत्क्षणा-
त् ॥ १०१ ॥

जो दंशस्थान ऐसी जगह हो कि जहाँ बाँध नहीं
बँध सकता, हो तो वहाँ चीरकर दाग देवे । अथवा
सींग वा तुम्बीसे चूसे, चीरा देवे और जलावे, अथवा
कपडेको सुखम भरकर उस जगहको सुखसे चूसे
अथवा जो सांप काटे उसी सांपको तत्काल पकडकर
काटखाय, और काटनेके साथ ही मट्टीके ढेलेको
काट खाय तो विष नहीं चढ़ता है ॥ १०० ॥ १०१ ॥

मूलं तंडुलवारिणा पिबति यः प्र-
त्यङ्गिरासम्भवं निष्पिष्टं शुचिभद्र-
योगदिवसे तस्याऽहिभीतिः कु-
तः ॥ दर्पादेव फणी यदा दशति तं
मोहान्वितो निष्पतन्स्थाने तत्र
तदैव याति नियतं वक्रं यमस्या-
चिरात् ॥ १०२ ॥

सकेदपुनर्नैवेकी जडको चावलोके जलमें पीसकर
आपाढ़के, महीनेमें शुभदिन, शुभ योग और शुभन-
क्षत्रमें पान करनेसे सर्पका भय नहीं रहता । जब
सर्प क्रोधसे मनुष्यको काटता है तब वह मोहको
प्राप्त होकर पृथ्वीपर गिरपडता है और तत्काल उसी
स्थानमें अवश्य यमराजके गृहको जाता है ॥ १०२ ॥

मसूरनिम्बपत्राभ्यां योऽस्ति मेषगते
रवौ । अब्दमेकं न भीतिः स्याद्वि-
षार्त्तस्य न संशयः ॥ १०३ ॥

मसूर और नीमके पत्तोंको जो एकवार मेषके
सूर्यमें भक्षण करता है, उसके एक वर्षपर्य्यंत सर्पके
विषका भय नहीं रहता ॥ १०३ ॥

श्लेष्मणः कर्णरूढस्य वामनासिकया
कृतः । नृमूत्रसेविने घोरं लेपं हन्या-
द्विषं तथा ॥ १०४ ॥

कफजन्यकानके मूत्रको नासिकाके वाये नथनेपर
लेप करनेसे अथवा मनुष्यके मूत्रको सेवन करनेसे
सर्पका घोर विष दूर होता है ॥ १०४ ॥

कुलकमूलनस्येन कालदष्टोऽपि जी-
वति ॥ १०५ ॥

परवलकी जड़की नस्य देनेसे कालरूपी सर्पका
हसा हुआ भी बचजाता है ॥ १०५ ॥

पिंडी तगरकं नेत्रे पुण्येणोत्पाद्य यो-
जितम् । चालयत्यत्र नो चित्रं पुरुषं
दष्टमृतं खलु ॥ १०६ ॥

पिण्डी तगरको पुण्यनक्षत्रमे उखाड कर नेत्रोंमें
लगानेसे साँपका काटाहुआ मनुष्य मृत्युको प्राप्त
होनेपर भी आरोग्य हो जाता है, यह आश्चर्य्य की
बात है ॥ १०६ ॥

शिरिषपत्रस्वसे सप्ताहं मरिचं सि-
तम् । भावितं सर्पदष्टानां नस्यपाना-
ञ्जनैर्हितम् ॥ १०७ ॥

शिरसके पत्तोंके रसमें सफेद मरिचको सात दिन
तक भावना देकर साँपके काटे हुए मनुष्योंको नस्य,
पान और अञ्जन इनके द्वारा प्रयोग करानेसे अत्यंत
लाभ होता है ॥ १०७ ॥

बन्ध्याकर्कोटमूलञ्च छागमूत्रेण भा-
वितम् । नस्यं काञ्जिकसंपिष्टं विषो-
पहतचेतसः ॥ १०८ ॥

बांझरुकोडेकी जड़को बकराके मूत्रमें भावना देकर
और कांजीमें पीसकर नास देनेसे सर्पका विष दूर
होता है ॥ १०८ ॥

गृहधूमं हरिद्रे द्वे समूलं तण्डुलीयकम् ।
अपि वासुकिना दष्टः पिबेद्दधियृत-
प्लुतम् ॥ १०९ ॥

घरका धुआँ, हलदी, दारुहलदी और चौलाईकी
जड़ इन सबको एकत्र पीसकर दही और घीमें मिला-
कर पान करनेसे वासुकी सर्पका काटाहुआ भी आ-
रोग्य होजाता है ॥ १०९ ॥

श्लेष्मातकीकट्फलमातुलुङ्गश्चेतागि-
रिह्वा किण्ही सिताञ्च । सतण्डु-
लीयोऽगद एष मुखयो विषेषु दर्वीक-
रराजिलानाम् ॥ ११० ॥

लसौडा, कायफळ, त्रिजौरानीवू, सफेद कोइल,
सफेद पुनर्नवा और चौलाई इन सबको एकत्र पीस-
लेवे । यह उत्तम औषध दर्वीकर और राजिल जातिके
साँपोंके विषोंमें अतीव हितकारी है ॥ ११० ॥

निर्गुण्डीसहितं पानात्सद्यः फणिवि-
षापहम् । स्वरसेनैव मूलञ्च भावितं
सिन्धुवारिजम् ॥ १११ ॥

सिम्हालकी जड़को सिम्हालके ही स्वरसमें भावना
देकर पान करनेसे सर्पका विष शीघ्र दूर होता है
सिम्हालका ही नाम निर्गुण्डी है ॥ १११ ॥

सैन्धवं मरिचं तुल्यं निम्बबीजसमं
कृतम् । मधुसर्पिर्पुतं हन्ति विषं स्था-
वरजङ्गमम् ॥ ११२ ॥

सैधानमक, कालीमिरच और नीमके बीज इन
तीनों औषधियोंको सघान भाग लेकर एकत्र पीसकर
शहद और घीमें मिलाकर सेवन करनेसे स्थावर
और जंगम विष दूर होता है ॥ ११२ ॥

सचतुर्मरिचः कर्षः चाङ्गेर्याः सह स-
पिषा । हन्ति पानप्रलेपाभ्यां चोत्र-
सर्पविषं भयम् ॥ ११३ ॥

चार दाना या चार कर्ष कालीमिरच और चाँगे-
रीका रस १ तोला परिमाण इन दोनोंको एकत्र घीके
साथ मिलाकर पान और प्रलेपके द्वारा सेवन करनेसे
भयंकर सर्पका विष और भय नष्ट होता है ॥ ११३ ॥

पारावतामिषं शुण्ठी पुष्कराहं सि-
तं हितम् । गरतृष्णारुचिश्वासकास-
हिकापहं परम् ॥ ११४ ॥

कचूतरका मास, सोंठ, पोहररुमूत्र और मिश्री इन
सबको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे गर दोष और
इससे उत्पन्नहुए उपद्रव तृमा, अतृचि, श्वास, खोंसी
और हिचकी दूर होती है ॥ ११४ ॥

द्राक्षाश्वगन्धानगमृत्तिकाश्चेता च
पिष्टा सदृशैः स्वभागैः । देयो विभा-

गः सुरसाछदस्य कपित्थविल्वादिपि
दाडिमाञ्च । एषोऽगदः क्षौद्रयुतो
निहन्ति विशेषतो मण्डलिनां
विषाणि ॥ ११५ ॥

दाख, असंगव, गेरु, सफेदकोइल, तुलसीरू पत्ते,
कैथ, बेल और अनारके पत्ते इन सबको समान भाग
लेकर एकत्र पीसकर गहदमें मिलाकर सेवन करे ।
एह औषध विशेष करके मण्डलीसर्पोंके विषको दूर
करता है ॥ ११५ ॥

ताक्ष्य अगद ।

प्रपौण्डरीकं सुरदारुमुस्ता कालालु-
सारी कटुरोहिणी च । स्थौण्यकं
ध्यामकगुग्गुलनि पुत्रागतालीससु-
वर्चिकाश्च ॥ ११६ ॥ कुट्टत्रटैला-
सितसिन्धुवारशैलेयकुष्ठं तगरं प्रि-
यंगु । लोधाञ्जनं काञ्चनगैरिकश्च
गन्धं समं चन्दनसैन्धवश्च ॥ ११७ ॥
सूक्ष्माणि चूर्णानि समानि कृत्वा
शृङ्गे निदध्यान्मधुसंयुतानि । एषो-
ऽगदस्ताक्ष्य इति प्रसिद्धो विषं निह-
न्यादपि तक्षकस्य ॥ ११८ ॥

पुंडेरिया, देवदारु, नागरमोथा, भूरिछीला,
कुटकी, थुनेर, सुगंधरोहिसतृण, गूगल, पुत्राग (नाग-
केशरका वृक्ष), तालीसपत्र, सजी, कंवटीमोथा,
इलायची, सफेदसिम्हालु, शैलजगंधद्रव्य, या शिला-
जीत, कूठ, तगर, फूलप्रियंगु, लोध, रसौत, पीला
गेरु, गन्धरू, चन्दन और सैधानमक इन सबको एकत्र
वारीरू चूर्ण करके गहदमें मिलाकर गायके सींगमें
भरकर रख देवे । इस औषधिको ताक्ष्यागद कहते हैं।
यह तक्षकके विषको भी नष्ट करदेती है ॥ ११६ ॥
॥ ११७ ॥ ११८ ॥

महागद ।

त्रिवृद्धिशाले मधुकं हरिद्रे मञ्जिष्ठ-
वर्गो लवणाश्च सर्वे । कटुत्रिकं चैव
विचूर्णितानि शृङ्गे निदध्यान्मधुसंयु-
तानि ॥ ११९ ॥ अयं गदो हन्त्युपयु-
ज्यमानः पानाञ्जनाभ्यञ्जननस्यगो-

गैः । आवाय्यर्षवीर्यो विषवेगहन्ता
महागदो नाम महाप्रभावः ॥ १२० ॥

निनोत, इन्द्रायण, मुलठी, टांनो हलदी, मंजिष्ठादि
वर्गकी सम्पूर्ण औषधियों, पांचों नमक और त्रिकुटा
इन सबको एकत्र वारीरू चूर्ण करके गहदमें मिलाकर
गायके सींगमें भर कर रख देवे । इसको महागद
कहते हैं । इसको पान, अभ्यंजन, अंजन और नस्यके
द्वारा प्रयोग करनेसे अत्यंत उग्र वायवाले सर्पोंका
विष, दुर्निवार तथा सर्वप्रकारका विष दूर होता है ।
यह महाप्रभाववाली औषध है ॥ ११९ ॥ १२० ॥

दशाङ्गधूप ।

विल्वपुष्पत्वचौ मांसी फलिनीनाग-
केशरम् । शिरीषं तगरं कुष्ठं हरिता-
लं मनःशिला ॥ १२१ ॥ एतानि
समभागानि पेषयेत्सलिलेन तु । सम-
भ्यङ्ग्य ततो गात्रं सर्पदृष्टार्तिदारणः
॥ १२२ ॥ विषान्वा भक्षयेदुप्राङ्गरां-
श्च विविधान्हेत । कन्यासंवरणं ग-
च्छेद्युद्धे देवासुरोपमे ॥ १२३ ॥ राज-
द्वारेषु सर्वेषु धूपैश्चैवापराजितः । बृ-
हस्पतिरिति प्रोक्तो ब्रह्मणा निर्मितः
स्वयम् ॥ १२४ ॥ नाग्निर्दहति तद्वेश्म
प्रभवन्ति न राक्षसाः । न म्रियन्ते त-
था बाला दशाङ्गो यत्र तिष्ठति १२५ ॥

बेलके फूल और छाल, वालछड, फूलप्रियंगु,
नागकेशर, शिरस, तगर, कूठ, हरिताल और मैन-
शिल इन सब औषधियोंको समान भाग लेकर जलमें
पीसकर सापके डसेहुये मनुष्यके शरीर पर अभ्यग
करे । यह औषध अत्यंत उग्र विष और अनेकप्रकार
के गरोंको दूर करती है । इन औषधियोंकी धूप
लगाकर कन्याके स्वयंवरमें, देवता और असुरोंकी
समान युद्धमें और सर्व प्रकारके राजद्वारोंमें जानेसे
मनुष्य विजयलक्ष्मीको प्राप्त होता है । इस धूपको
बृहस्पतिने कहा है और ब्रह्माजीने स्वयं निर्माण
किया है । जिसघरमें यह दशाङ्गधूप रहती है, उस
घरमें न कभी अग्नि लगती है, न कभी राक्षसोंकी
बाधा होती है और न उस घरके बालक मरते हैं
॥ १२१ - १२५ ॥

वटशुङ्गं समाञ्जिष्टं जीवकर्षभकौ सि-
ता । काश्मर्यमुदकं चैव पानं म-
ण्डलदष्टके ॥ १२६ ॥

बड़ेके अंकुर, मजीठ, जीवक, ऋषभक, मिश्री
और कुन्भर इनको जलमें पीसकर पान करनेसे
मण्डलसर्पका विष शांत होता है ॥ १२६ ॥

कौन्तीकुष्ठं नतं व्योषं मधुकातिवि-
षामधु । गृहधूमश्च पानेन घ्नन्ति स-
र्षभवं विषम् ॥ १२७ ॥

रेणुका, कूठ, तगर, त्रिकुटा, मुलैठी, अतीस,
शहद और धरका धुआँ इन सबको एकत्र पीसकर
पान करनेसे सांपका विष दूर होता है ॥ १२७ ॥

मांसिचन्दनसिन्धूत्थकृष्णायष्टयूष-
णोत्पलैः । अञ्जनं स्यात्सगोपित्तं वि-
षसुप्तस्य बोधनम् ॥ १२८ ॥

वालछड, चन्दन, सैवानमक, पीपल, मुलैठी,
कालीमिरच, कमल और गायका पित्त इन सबको
एकत्र पीसकर नेत्रोंमें आंजनेसे विषसे मूर्च्छित मनु-
ष्य चैतन्य होजाता है ॥ १२८ ॥

नक्तमालफलं व्योषं बिल्वमूलं नि-
शाद्वयम् । सौरसं पत्रमाजश्च मूत्रं
बोधनमञ्जनम् ॥ १२९ ॥

करञ्जके बीज, त्रिकुटा, बेलकी जड़, हलदी,
दारुहलदी, तुलसीके पत्ते और बकरीका मूत्र इन
सबको एकत्र पीसकर नेत्रोंमें आंजनेसे विषसे बेहोश
मनुष्य चैतन्यताको प्राप्त होता है ॥ १२९ ॥

बीजकलकं ससिन्धूत्थं मयूरकाशि-
रीषयोः । नस्यं यवफलं बीजं सपा-
ठं वा प्रबोधकम् ॥ १३० ॥

सैवानमक, चिराचिटा और गिरसके बीजोंका
कलक इन सबको एकत्र पीसकर नस्य देनेसे
अथवा इन्द्रजाँ और पाठके बीजोंको पीसकर नस्य
देनेसे विषसे मोहको प्राप्त हुआ मनुष्य ज्ञानको प्राप्त
होता है ॥ १३० ॥

सम्यङ्मधुकसारेण गोमूत्रे भावितेन
तु । दद्याद्विषहरं नस्यं सिध्माञ्जश्च
प्रलेपनम् ॥ १३१ ॥

गोमूत्रमें अच्छेप्रकारसे मधुके सारको भावना
देकर नस्य देनेसे सर्पका विष नष्ट होता है । अथवा
शरीरके ऊपर लेप करनेसे सिध्मकुष्ठ दूर
होता है ॥ १३१ ॥

मयूरपित्तेन च तंदुलीयकं काकाण्ड-
युक्तं प्रपिबेदनल्पम् । विषाणि च
स्थावरजङ्गमानि सोपद्रवाण्याप्य-
चिरेण हन्ति ॥ १३२ ॥

मोरके पित्तको चौलाईके रस और काँचके अण्डोंके
साथ एकत्र मिलाकर पान करनेसे सर्व प्रकारके
स्थावर और जंगमविष और उनके उपद्रवभी शांति
नष्ट होते हैं ॥ १३२ ॥

शिरिषारिष्टनक्ताहृत्वक्कोशातकी-
फलैः । हन्ति गोमूत्रसपिष्टैर्विषं
स्थावरजंगमम् ॥ १३३ ॥

शिरस, नीम, करंजकी छाल और तोरई इन
सबको एकत्र गोमूत्रमें पीसकर प्रयोग करनेसे स्था-
वर और जंगम विष दूर होता है ॥ १३३ ॥

वचोषणशिलादारुनक्ताहृदिनिशा-
ञ्जनम् । शिरीषपिप्पलीयुक्तं गरदो-
षनिपूदनम् ॥ १३४ ॥

वच, कालीमिरच, भैनाशिल, देवदारु, करंज, हल-
दी दारुहलदी, गिरस और पीपल इन सबको एकत्र
पीसकर नेत्रोंमें आंजनेसे गरदोष दूर होता है ॥ १३४ ॥

तिक्तलुम्बीजबीजानि गोपित्तेन प्र-
लेपयेत् । एष सर्वविषध्वंसी ब्रह्मपु-
त्रादिनाशनः ॥ १३५ ॥

कड़वीतोम्बीके बीज और गोपित्त इनको एकत्र
पीसकर प्रलेप करनेसे ब्रह्मपुत्रादि सर्वत्रकारका विष
दूर होता है ॥ १३५ ॥

मूलत्वक्पत्रपुष्पाणि बीजश्चेति शि-
रीषतः । गवां मूत्रेण संपिष्टं भेषजं
विषवारणम् ॥ १३६ ॥

शिरसकी जड़, छाल, पत्ते, फूल, और बीजोंको
गोमूत्रमें पीसकर व्यवहार करनेसे विषकी बाधा दूर
होती है ॥ १३६ ॥

मञ्जिष्ठैला निशा द्राक्षा मांसी यष्टी
हरेणुका । क्षौद्रं चेति विषघ्नोऽयमग-
दः काशिकोऽब्रवीत् ॥ १३७ ॥

मंजीठ, इलायची, हलदी, दाख, बालछड, मुलैठी,
रेणुका और शहद इन सबको एकत्र पीसकर व्यवहार
करनेसे सर्वप्रकारके विष दूर होते हैं । यह अगद
काशिराजने कहा है ॥ १३७ ॥

लवणानि त्रिवृद्धन्ती विशाला त्र्युष-
णं निशा । मञ्जिष्ठामधुकं शृङ्गं ह्य-
गदः सर्वकर्मकृत् ॥ १३८ ॥

पाँच । तमक, निसोत, देती, इन्द्रायण, त्रिकुटा,
इलदी, मंजीठ, मुलैठी और सींग इन सबको एकत्र
पीसकर सेवन करे । यह औषध सर्वप्रकारके विषों-
के विकारोंको दूर करता है ॥ १३८ ॥

चन्द्रोदयोऽगद ।

चन्दनञ्च शिलाकुष्ठत्वक्पत्रैलाब्दस-
र्षपाः । मांसीपद्मकवत्साऽसुकसुर-
भीभवरोचनाः ॥ १३९ ॥ स्पृक्काहिं-
ग्वंशुलामज्जशतपुष्पाप्रियंगवः । पि-
ष्ट्वा सर्वविषोन्मन्था नाम्ना चन्द्रो-
दयोऽगदः ॥ १४० ॥

चन्दन, मैनशिल, कूठ, दालचीनी, तेजपात, इला-
यची, नागरमोथा, सरसों, बालछद, पद्माख, इन्द्र-
जौ, केशर, गोरोचन, असवरग, हींग, सुगंधवाला,
लामज्जकतृण, सौफ और फूलप्रियंगू इन सबको एकत्र
पीसकर रख देवे । इसको चन्द्रोदय अगद कहते हैं ।
यह सर्व प्रकारके विषोंको दूर करता है १३९ ॥ १४० ॥

सूर्योदयोऽगद ।

श्यामेभपाटलीकृष्णा मञ्जिष्ठाकिण-
दीशिलाः । कोविदारोषणे चक्रं नि-
शो दध्यपराजितम् ॥ १४१ ॥ बृह-
तीमधुकञ्चैव गोमूत्रेण प्रपेषयेत् । ए-
ष सूर्योदयो नाम्ना विषरक्षामयो-
ऽगदः ॥ १४२ ॥

कालीनिसोते, नागकेशर, पाढल, पीपल, मंजीठ,
पुनर्नवा, मैनशिल, कचनार, कालीमिरच, पमारके
बाज, इलदी, दाखहलदी, दही, कोइली, बडीकटेरी

और मुलैठी इन सबका एकत्र गोमूत्रमें पीस लेंवे ।
इसको सूर्योदय अगद कहते हैं । यह सर्वप्रकारके
विषोंसे रक्षा करता है ॥ १४१ ॥ १४२ ॥

अमृतघृत ।

अपामार्गस्य बीजानि शिरीषस्य
तथैव च । द्वे मेदे काकमाची च ग-
वां मूत्रेण पेषयेत् ॥ १४३ ॥ सर्पि-
रेतेषु संसिद्धं विषसंशमनं परम् ।
अमृतं नाम विख्यातमपि सञ्जीव-
येन्मृतम् ॥ १४४ ॥

चिरचित्के बीज, शिरसके बीज, मेदा, महामेदा
और मकोय इन सबको गोमूत्रमें पीसकर कल्क
बनाकर उसके द्वारा घृतको पकावे । यह घृत-सर्व
प्रकारके विषोंको दूर करता है और मृतको भी
जिना देता है, इसी लिये इसको अमृत कहते हैं ॥
१४३ ॥ १४४ ॥

नागदन्त्याद्यघृत ।

नागदन्ती त्रिवृद्धन्ती स्तुक्पयः पलि-
कैः समैः । गवां मूत्राढके सिद्धं स-
र्पिः सर्वविषापहम् । सर्पकीटविषा-
र्त्तानां गरार्त्तानाञ्च शस्येत ॥ १४५ ॥

नागदन्ती (हत्थाजोडी), निसोत, दन्ती और
थूहरका दूध इन प्रत्येक चार चार तोले औषधिके
साथ एक आढक गोमूत्रमें उत्तम प्रकारसे गायके
घृतको पकावे । यह घृत-सर्वप्रकारके विषोंको दूर
करता है, इसलिये साँप और कीटके विषोंको एवं
गर विषोंसे पीडित व्यक्तियोंके लिए यह अत्यन्त
श्रेष्ठ है ॥ १४५ ॥

तण्डुलियघृत ।

तण्डुलीयकमूलेन गृहधूमिना चैक-
तः । क्षीरेण सघृतं सिद्धं समस्तं
विषरोगनुत् ॥ १४६ ॥

चौलाईकी जड़ और घरका धुआँ इन दोनोंको
दूधमें मिलाकर उसके साथ घीको पकावे । यह
घृत-सर्वप्रकारके विषोंको दूर करता है ॥ १४६ ॥

अजेयघृत ।

मधुकं तगरं कुष्ठं भद्रदारुहरणवः

पुत्रागमैलबालुकं नागपुष्पोत्पलं सि-
ता ॥ १४७ ॥ विडङ्गं चन्दनं पत्रं भि-
यंगु ध्यामकं तथा । हरिद्रे द्वे बृह-
त्यौ च शारिवांशुमती वला ॥ १४८ ॥
कल्केरैतैर्वृतं सिद्धमजेयमिति वि-
श्रुतम् । विषाणि हन्ति सर्वाणि शी-
घ्रमेवाजितं क्वचित् ॥ १४९ ॥

मुलैठी, तगर, कूठ, देवदारु, रेणुका, पुत्राग,
एलुआ, नागकेसर, कमल, मिश्री, वायविडंग, चन्दन,
तेजपात, फूलप्रियंगु, सुगंधिततृण, हलदी, दाहहलदी,
कटेरी, बडी कटेरी, शारिवा, शालिपर्णी और खिरंटी
इनके कल्कके द्वारा घृतको पकावे । यह घृत-सर्व-
प्रकारके विषोंको शीघ्र ही दूर करता है । इसको अजे-
यघृत कहते हैं ॥ १४७ ॥ १४८ ॥ १४९ ॥

मृत्युपाशापहघृत ।

सरोध्रमभयाकुष्ठमर्कपुष्पीं तथोत्प-
लम् । नलवेतसमूलानि गरलं सुरसां
तथा ॥ १५० ॥ सकालिंदीं समञ्जि-
ष्ठामनन्तां सशतावरीम् ॥ शृङ्गाटकं
समङ्गाञ्च पद्मकेसरमित्यपि ॥ १५१ ॥
कल्कीकृत्वा पचेत्सर्पिः पयो दत्त्वा
चतुर्गुणम् । सम्यक्पक्वेऽवतीर्णे च शृ-
तशीते विनिःक्षिपेत् ॥ १५२ ॥ सर्पि-
स्तुल्यं भिषक् क्षौद्रं कृतरक्षं निधा-
पयेत् । विषाणि हन्ति दुर्गाणि जङ्ग-
मस्थावराणि च ॥ १५३ ॥ कृत्रिमाणि
च यावन्ति गरदोषकृतानि च ।
स्पर्शादेव विषं हन्ति गरैरुपहतत्व-
चम् ॥ १५४ ॥ योगोऽयं तमकं कंडूं
मांसादञ्च विसंज्ञताम् । नाशयत्यञ्ज-
नाभ्यङ्गपानवरितेषु भोजने ॥ १५५ ॥
सर्पकीटाखुलुताभिर्दृष्टानां विषनुत्प-
रम् । मृत्युपाशहरं नाम घृतमेतत्प्र-
कीर्तितम् ॥ १५६ ॥

लोध, हरड, कूठ, हुलहुल, लाल कमल, वेंतकी
जड, विष, गरल, तुलसी, पुनर्नवा, मजीठ, अनन्त-

मूल, शतावर, सिंघाडे लजावती और कमलकेशर इन
सबका कल्क बनाकर उसके साथ चौगुने दूधमें
डालकर उत्तम घृतको पकावे । जब वह अच्छे प्रका-
रसे पकजाय तब नीचे उतारकर अपने आप शीतल
होजाने पर उसमें घृतके बराबर गहद डालकर
उसको एक उत्तम चिकने वासनमें भरकर रखदेवे ।
यह घृत-अत्यन्त दारुण, जगम और स्थावरविष
एवं सर्वप्रकारके कृत्रिम और गरदोष इन सबको दूर
करता है । तथा गरविषके स्पर्शमात्रसे ही दूषित हुई
त्वचाके विकारोंको दूर करदेता है । यह प्रयोग तमक,
कण्डू, मांसाद और वेहोगीको अंजन, अभ्यग, पान,
वास्ति और भोजनमें प्रयोग करनेसे नष्ट करता है ।
तथा सर्प, कीट, मूषा और लूता आदि जीवोंके
सर्वप्रकारके विषोंको दूर करता है इसको मृत्युपा-
शहर घृत कहते हैं ॥ १५०-१५६ ॥

अथ दूषीविषकी चिकित्सा । ✓

दूषीविषार्त्तं सुस्निग्धमूर्ध्वं चाधश्च
शोधितम् । पाययेदगदं मुख्यमिदं
दुषीविषापहम् ॥ १५७ ॥

दूषीविषवाले रोगीको प्रथम अच्छेप्रकारसे स्निग्ध
करके पश्चात् वमन और विरेचनसे संशोधन करे ।
फिर इस नीचे लिखे दूषीविषनाशक मुख्य अगदको
पिलावे ॥ १५७ ॥

पिप्पली ध्यामकं मांसी लोध्रमेला
सुवार्चिका । बालकं परिपेला च तथा
कनकगैरिकम् ॥ १५८ ॥ क्षौद्रयुक्तो-
गदो ह्येष दूषीविषमपोहाति । दुषीविषा-
रिनामायं न कैश्चिदपि बाध्यते ॥ १५९ ॥

पीपल, सुगंधिततृण, बालछड, लोध, इलायची,
सजी, सुगन्धवाला, केवटीमोथा और पीला गेरू इन
सबको एकत्र करके गहदमें मिलाकर सेवन करे तो
यह औषधि दूषीविषको नष्ट करती है यह दूषीविष
नाम अगद किसीसे भी बाध्यत नहीं होती
है ॥ १५८ ॥ १५९ ॥

गरविष । ✓

अन्यैरुपविषैस्तीव्रैरेकीकृत्वा तु भू-
रिभिः । कालांतरजिघांसायै क्रियते
च गरन्तु तत् ॥ १६० ॥

अन्यान्य बहुतसे तीव्र उपविषाको एकत्र करके गरविष सिद्ध होता है। वह कालान्तरमे मृत्युको करता है ॥ १६० ॥

घृणालस्यारुचिश्वासांस्ततश्चैवाभिमा-
देवम् । अविपाकाबलत्वञ्च कुट्या-
दुपचितो गरः ॥ १६१ ॥

शरीरमे ग्लानि, आलस्य, भोजनमे अरुचि,श्वास, मंदाग्नि, भोजनका न पकना और बलकी हीनता यह सब संचितगरके कार्य है ॥ १६१ ॥

अङ्गोटमूलं निःक्वाथ्य सफाणितघृतं
लिहेत् । तैलाक्तः स्वित्रसर्वाङ्गो गर-
दोषविषापहम् ॥ १६२ ॥

अंकोलकी जडका काथ बनाकर उसमें राव और घृत डालकर, तेलसे स्वेदित किये हुये गरदोषवाले रोगीको पिलावे। इससे गरदोषजनित विष नष्ट होता है ॥ १६२ ॥

शर्कराक्षौद्रसंयुक्तं चूर्णं ताप्यसुवर्ण-
योः । लेहः प्रशमयत्युग्रं नानायोग-
कृतं विषम् ॥ १६३ ॥

मिश्री, शहद, सोनामाखी और सुवर्णकी भस्म इन सबको एकत्र मिश्रकर चाटनेसे अनेकप्रकारके रोगोंसे उत्पन्न किया हुआ अत्यन्त तीक्ष्ण त्रप दूर होता है ॥ १६३ ॥

वृषाद्यघृत ।

वृषनिम्बपटोलानां काथेनापि पचेद्-
घृतम् । अभया गर्भितं तोयमेतदा-
रोग्यदं परम् ॥ १६४ ॥

अडूसा, नीम और परवल इनके काथके साथ हरडका कल्क और जल मिलाकर उसमे घृतमो पकावे। इस घृतको सेवन करनेसे गरदोष दूर होकर आरोग्यता उत्पन्न होती है ॥ १६४ ॥

लूताविषकी चिकित्सा ।

रजनीद्रयमाञ्जिष्ठापतङ्गजकेशरैः ।
शीताम्बुपिष्टैरालेपः सद्यो लूतां वि-
नाशयेत् ॥ १६५ ॥

हलदी, दारुहलदी, मजीठ, पतंग और नागकेशर इन सबको एकत्र नीतल जलमें पसिकर काटनेके

स्थानपर लेप करनेसे तत्काल मकड़ीका विष दूर हो जाता है ॥ १६५ ॥

कटभ्यर्जुनशैरीषशैलुक्षीरीद्रुमत्वचः ।
कषायकल्कचूर्णाः स्युः कीटलूतात्र-
णापहाः ॥ १६६ ॥

कटभो, अर्जुन, गिरस, बेल और क्षीरीवृक्ष (पा-
खर, वड, गूठर, पीपल, बेलियापीपल) इनकी छालके काथ, कल्क और चूर्णको सेवन करनेसे मकड़ी कीट, पतङ्ग आदिके विषसे उत्पन्न हुये त्रण दूर होते है ॥ १६६ ॥

चन्दनं पद्मकं कुष्ठं नतं चोशीरपा-
टले । निर्गुण्डीशारिवाशैलुलूतावि-
षहरोऽगदः ॥ १६७ ॥

चंदन, पद्माख, कूठ, तगर, खस, पाढल, निर्गु-
ण्डी, शारिवा और बेल इन सबको एकत्र पीसकर पान या प्रलेप करनेसे मकड़ीका विष दूर होता है ॥

चन्दनं पद्मकोशीरं शिरीषं सिन्धुवा-
रिणा । क्षीरशुक्ता नतं कुष्ठं शारिवा-
दीच्यपाटलाः ॥ शैलुंबरी च पिष्टो-
ऽयं लूताया विषनाशनः ॥ १६८ ॥

चंदन, पद्माख, खस, शिरस, सिम्हालू, क्षीरवि-
दारी, तगर, कूठ, शारिवा, सुगन्धवाला, पाढल,
बेल और गतावर इन सबको एकत्र पीसकर प्रलेप
करनेसे मकड़ीका विष दूर होता है ॥ १६८ ॥

फालिनीद्विनिशाक्षौद्रसर्पिर्भिः पद्म-
काह्वयैः । अशेषकीटलूतानामगदः
सर्वकामिकः ॥ १६९ ॥

फूशप्रियगू, हलदी, दारुहलदी, शहद, घी और
पद्माख इन सबको एकत्र करके सेवन करनेसे सर्व-
प्रकारके कीट और लूताका विष दूर होता है ॥ १६९ ॥

करभार्कपयोवाजिमारकैः सवि-
षानलैः । साक्षौटस्वरसैः सिद्धं तै-
लं लूतात्रणापहम् ॥ १७० ॥

करज, आकका दूध, कनेर, अतीस, चीता और
अखरोट इनके स्वरसके द्वारा तेलको पकाकर लेप
करनेसे मकड़ीके काटनेसे त्रण हुआ दूर होता है ३७०

मृषकविषकी चिकित्सा ।

छर्दनं जालिनीकाथैः शुकाख्यां
मूषिकाविषे । विरेचने त्रिवृद्धन्ती
त्रिफलाकल्क इष्यते ॥ १७१ ॥

मूसेके विषमे ऋद्धीतोरई' और शिरसके बीजोंके
द्वारा वमन करावे तथा निसोत, दंती और त्रिफलेके
कल्कके द्वारा विरेचन करावे ॥ १७१ ॥

शैरीषस्य च मूलं वा सक्षाद्रं तंडु-
लांबुना । अङ्गोटकस्य वा मूलं व-
स्तमूत्रेण कल्कितम् ॥ पानालेपन-
योरुक्तं सर्वाखुविषनाशनम् ॥ १७२ ॥

शिरसकी जडको गहदके साथ अथवा चावलोंके
जलके साथ या अंकोलकी जडके कल्कको बकरीके
मूत्रके साथ पान करनेसे किम्बा लेप करनेसे सर्व-
प्रकारके मूसोंका विष दूर होता है ॥ १७२ ॥

विशालांकोटमूलञ्च तिलमूलं सि-
ता मधु । घृतेनाखुविषं हन्ति पीत-
मात्रञ्च दुस्तरम् ॥ १७३ ॥

इन्द्रायणकी जड, अंकोलकी जड, तिलोंकी जड,
मिश्री और गहद तथा बी इन सबको एकत्र मिला-
कर पान करनेसे चूहेका दुस्तर विष दूर होता है
॥ १७३ ॥

कुसुम्भपुष्पगोदन्तस्वर्णक्षीरीकपोत-
विट् । दन्तीत्रिवृत्सैन्धवैलाकिणिही-
फाणिनं तथा ॥ क्षीरेणाखुविषं ह-
न्ति पीता तिलकमञ्जरी ॥ १७४ ॥

कसूमके फूल, गायका दाँत, मत्यानाशी, कटेरी,
कवूतरकी विष्टा, दंती, निसोत, सैधानमऊ, इलायची,
पुनर्नवा, राव और तिलकल्क इन सबको एकत्र
मिलाकर दूधके साथ सेवन करनेसे चूहेका विष दूर
होता है ॥ १७४ ॥

त्रिकटुकाद्यश्च हितो गोभयस्वरसो-
ऽञ्जने । कपित्थगोभयरसो सक्षौद्रो
लेह इष्यते ॥ १७५ ॥

त्रिकुटेको गोवरके रसमें पीसकर नेत्रोंमें आजने-
से अथवा कैथको गोवरके रसमें और शहदमें मि-
लाकर चाटनेसे मूसेका विष दूर होता है ॥ १७५ ॥

मार्जारकस्य पित्तेन पीतो मांसरसो-
सृजा । सोपद्रवमपि क्षिप्रं जयेन्मू-
षकजं विषम् ॥ १७६ ॥

विलावके पित्तके साथ मांसरस और रुधिरको
पान करनेसे उपद्रवयुक्त मूसेका विष शीघ्र दूर होता
है ॥ १७६ ॥

गवाक्षीबिल्वकाकोलतिलमूलाः स-
शर्कराः । मध्वाज्यसंयुताः पीता
मूषिकाविषनाशनाः ॥ १७७ ॥

गोरक्षककडी, बेलगिरी, काकोलीकी जड, तिलों-
की जड और मिश्री इन सबको एकत्र पीसकर शहद
और घीमें मिलाकर सेवन करनेसे चूहेका विष दूर
होजाता है ॥ १७७ ॥

बिल्वकाकोलयोर्मूलं गिरिकर्ण्या-
स्तिलस्य च । एतेषां मधुसर्पिभ्यां
पानमाखुविषापहम् ॥ १७८ ॥

बेलगिरी, काकोलीकी जड, कोयल और तिल
इनको शहद और घीमें मिलाकर सेवन करनेसे
चूहेका विष दूर होता है ॥ १७८ ॥

तंडुलीयकमूलेन सिद्धं सर्पिः पिबे-
न्नरः । मूषिकाणां विषं तेन नाश-
धायति सत्वरम् ॥ १७९ ॥

चौलाईकी जडके कल्कके द्वारा घृतको पकाकर
सेवन करनेसे मूसोंका विष तत्काल दूर होजाता
है ॥ १७९ ॥

अलर्कविषकी चिकित्सा ।

दंशस्त्वलर्कदष्टस्य दुग्धयुक्तेन सर्पि-
षा । प्रसिञ्च्यादगदैस्तैः पुराणञ्च
घृतं पिबेत् ॥ १८० ॥

पागल कुत्तेके काटे हुए स्थानमें दूध और घृतको
मिलाकर सिंचन करे अथवा ओर जो जो अगद
कहे हैं उन्हींसे सर्पिं और पुराने घृतको पान करे
॥ १८० ॥

मूलस्य शरपुङ्गायाः कर्ष धत्तूरका-
न्वितम् । सतंडूलोदकैः पिष्ट्वा छा
योन्मत्तभवैदलैः ॥ पक्वालर्कविषे-
णार्तः खादेत्तद्विषनाशनम् ॥ १८१ ॥

सरफोकेकी और धतूरेकी एक एक कर्प जडको चावलोके जलमे पीसकर फिर धतूरेके पत्तोंमें लपेटकर छायामें पकाव । इस औषधको खानेसे पागल कुत्तेका विष दूर होता है ॥ १८१ ॥

पिबेद्धत्तूरकशिफां क्षीरेण परिपेषिताम् । अङ्गोलवंशजां वापि श्वविषघ्नीं प्रयत्नतः ॥ १८२ ॥

धतूरेकी जडको दूधके साथ पीसकर पान करनेसे अथवा अंकोलकी जडको चावलोके जलके साथ पान करनेसे कुत्तेका विष दूर होता है ॥ १८२ ॥

काकोदुम्बरमूलन्तु धत्तूरफलकान्वितम् । पिबेत्तंडुलतोयेन सारभेयविषापहम् ॥ १८३ ॥

कठ्ठमरकी जड और धतूरेके फल इनको एकत्र पीसकर चावलोके जलके साथ पान करनेसे कुत्तेका विष दूर होता है ॥ १८३ ॥

अङ्गोटोत्तरमूलोत्थं कषायन्तु पलद्वयम् । सर्पिषश्च पलं पीतमलर्कविषनाशनम् ॥ १८४ ॥

अंकोलकी जडके आठ तोले काथमें चार तोले घृत डालकर पान करनेसे पागल कुत्तेका विष दूर होता है ॥ १८४ ॥

रसनोषणवैदेहीवचागोपित्तकल्किताः । पाननस्याञ्जनालेपैः श्वदंष्ट्राविषहाः पराः ॥ १८५ ॥

लहसुन, कालीमिरच, पीपल, वच और गायका पित्त इन सबका कलक बनाकर पान, नस्य, अंजन और लेप द्वारा प्रयोग करनेसे कुत्तेका विष दूर होता है ॥ १८५ ॥

जलवेतसवृक्षस्य मूलं कुष्ठं पचेज्जले । स काथः शीतलः पेयः परश्च विषनाशनः ॥ १८६ ॥

जलवेतकी जड और कुठमो जलमें पकाकर काथ बनावे उसको शीतल करके पान करनेसे कुत्तेका विष दूर होता है ॥ १८६ ॥

वृश्चिकविषकी चिकित्सा ।

सद्यो वृश्चिकजं दंशं चुक्रतैलेन सेचयेत् । विदारिगन्धासिद्धेन कवोष्णे-

नेतरेण वा ॥ १८७ ॥ लवणोत्तमयुक्तेन सर्पिषा वा पुनःपुनः । सिञ्चेत्कोष्णारनालेन सक्षीरलवणेन वा ॥ १८८ ॥

विच्छूके कांठ हुए स्थानको तत्काल चूकेके तेलसे सिंचन करे । अथवा शालिपर्णीके खुर गरम काथसे सींचे अथवा गरमघृतमें सैंधानमक डालकर बारबार सिंचन करे । या कुछ कुछ गरम कौजीके द्वारा सींचे । अथवा दूधमें नमक डालकर गरम करके सींचे ॥ १८७ ॥ १८८ ॥

शिखिकुक्कुटवर्हाणि सैन्धवं तिलसर्पिषा । धूपो हन्ति प्रयुक्तस्तु कीटवृश्चिकजं विषम् ॥ १८९ ॥

मोर और मुरगेकी शिखा (चोटी), सैंधानमक, तिल और घी इन सबकी धूप बनाकर देनेसे कीट और वृश्चिकका विष दूर होता है ॥ १८९ ॥

घृतेन सैन्धवं पीत्वा वृश्चिकस्य विषं जयेत् ॥ १९० ॥

घृतके साथ सैंधेनमकको पान करनेसे वृश्चिकका विष दूर होती है ॥ १९० ॥

तालनिम्बदलं केशाजीर्णाश्च लवणं घृतम् । धूपो वृश्चिकविद्धस्य शिखिपत्रं घृतेन वा ॥ १९१ ॥

ताड और नीमके पत्ते, पुराने बाल, सैंधानमक और घी इनकी धूप बनाकर देनेसे विच्छूका विष दूर होता है । अथवा मोरके पंखोंको घी मिलाकर धूप देनेसे विच्छूका विष दूर होता है ॥ १९१ ॥

अर्कक्षीरेण संपिष्टं लेपाद्धीजं पलाशजम् । वृश्चिकार्त्तिं हरेत् कृष्णा सशिरीषफला तथा ॥ १९२ ॥

ढालके बीजोंको आकके दूधमें पीसकर लेप करनेसे अथवा पीपल और शिरसके बीजोंको पीसकर लेप करनेसे विच्छूका विष दूर होता है ॥ १९२ ॥

मनोह्वासैन्धवं हिंशु जातीपत्रं सनागरम् । गोशकृद्रससंपिष्टं गुटिका वृश्चिकार्त्तिलुत् ॥ १९३ ॥

मैनशिल, सैंधानमक, हींग, चमेलीके पत्ते और सोठ इन सबको एकत्र गायके गोबरके रसमें पीस

कर गोली बनावे । यह गोली-बिच्छूके विषको दूर करती है ॥ १९३ ॥

**जीरकस्य कृतः कल्को धृतसैन्धवसं-
युतः । सुखोष्णो वृश्चिकार्त्तानां प्रले-
पो मधुना सह ॥ १९४ ॥**

जीरेका कल्क बनाकर उसको घी और सैन्धवम-
के साथ गहदमें मिलाकर सुहाता सुहाता लेप
करनेसे वृश्चिकका विष दूर होता है । १९४ ॥

**गन्धमाघ्राय मृदितसूर्यावर्तदलस्य
च । वृश्चिकैर्व्याथितो जन्तुः क्षणाद्भ-
वति निर्विषः ॥ १९५ ॥**

हुलहुलके पत्तेको चूर्ण करके सूँघनेसे क्षणभरमें
वृश्चिकका विष दूर होता है ॥ १९५ ॥

**कासमर्दकपत्रञ्च मूलञ्च कुशकाश-
योः । चर्वयित्वा च फूत्कारः कर्णे
वृश्चिकजं हरेत् ॥ १९६ ॥**

कसौंदीके पत्ते, कुशा और काँसकी जड़ इन तीनों-
को चाबकर वृश्चिकसे काटेहुये मनुष्यके कानमें थूक-
देने तो वृश्चिकका विष दूर होता है ॥ १९६ ॥

**पारावतः शकृत्पथ्या तगरं विश्वभे-
षजम् । बीजपूररसोपेतः परमो वृश्चि-
कागदः ॥ १९७ ॥**

कचूतरकी विष्टा, हरड, तगर और सोंठ इन सब-
को एकत्र पीसकर विजैरेनीबूके रसमें मिलाकर
सेवन करनेसे बिच्छूके विष दूर होता है ॥ १९७ ॥

नखदन्तजविषकी चिकित्सा ।

**सोमबल्कोऽधकर्णश्च गोजिह्वा हंसपा-
दिका । रजन्यां गैरिको लेपो नख-
दन्तविषापहः ॥ १९८ ॥**

कायफल, अश्वकर्णपलाग, गोजिया, हंसपदी,
हलदी, दारुहल्दी और गेरु इन सबको एकत्र
पीसकर लेप करनेसे नख और दाँतोंका विष दूर
होता है ॥ १९८ ॥

**शमीनिम्बजटापत्रवल्कलैः कथितै-
र्जलैः । नखदन्तक्षतं पुंसां नाशाय
परिषेचयेत् ॥ १९९ ॥**

छोंकर (जंडी) और नीमकी जड़, पत्ते और छा-
लका काथ बनाकर उससे सींचनेसे मनुष्योंके नख
और दाँतोंसे हुआ घाव दूर होता है ॥ १९९ ॥

**मञ्जिष्ठापद्मकोशीरैर्धान्यकैः पारिषे-
षितैः । सवृत्तैर्लेपनं दद्यान्नखदन्तवि-
षापहम् ॥ २०० ॥**

मजीठ, पद्माख, खस और धनियाँ इनको एकत्र
पीसकर घाँमें मिलाकर लेप करनेसे नख और दाँ-
तोंका विष दूर होता है ॥ २०० ॥

**द्विनिशागैरिकं लेपो नखदन्तविषा-
पहः । गोजिह्वामधुना लेपो नखद-
न्तविषप्रणुत् ॥ २०१ ॥**

हलदी, दारुहल्दी और गेरु इनको एकत्र पीसकर
लेप करनेसे अथवा गोजियाको गहदमें मिलाकर
लेप करनेसे नख और दाँतोंका विष दूर होता है २०१

खर्जूरविषकी चिकित्सा ।

**लेपः प्रदीप्ततैलेन खर्जूरविषनाशनः ।
हरिद्राद्वयलेपो वा सगैरिकमनः-
शिलाः ॥ २०२ ॥**

दीपकके तेलका लेप करनेसे कानखजूरेका विष
दूर होता है । हलदी और दारुहल्दी या गेरु और
मैनशिलका लेप करनेसे कानखजूरेका विष दूर होता
है ॥ २०२ ॥

**कुंकुमं तगरं शिशु पद्मकं रजनीद्र-
यम् । अगदो जलपिष्टोऽथं शतपद्मि-
षनाशनः ॥ २०३ ॥**

केशर, तगर, संहिजना, पद्माख, हलदी और
दारुहल्दी इन सबको जलमें पीसकर व्यवहार करने
से शतपदी (कानसलाई) का विष दूर होता है २०३

**कृष्णवेत्रस्य निक्राथः कल्को वा
धृतमिश्रितः । शृङ्गीमत्स्यविषं हन्ति
धूमो वा बहिपक्षजः ॥ २०४ ॥**

काले वेंतके काथ अथवा कल्कमें धृत मिलाकर
लेप करनेसे शृंगीमछलीका विष दूर होता है । अथवा
मोरके पंखोंका धुआँ देनेसे शृंगीमछलीका विष दूर
होता है ॥ २०४ ॥

जलौकाविषकी चिकित्सा ।

कीटदष्टक्रियाः सर्वाः समानाः स्यु-
जलौकसाम् ॥ २०५ ॥ शिरीषक-
टभीपार्थशैलक्षीरिद्रुमत्वचः । विषं
जलौकसां घ्नन्ति प्रयुक्ताः पानले-
पयोः ॥ २०६ ॥

जलौका अर्थात् जौकके विषमे कीटदष्टके समान
सम्पूर्ण क्रिया करनी चाहिये । गिरस, कटभी, अर्जुन,
बेल और क्षीरा वृक्षोकी छाल इन सबको पीसकर
पान और लेपमें प्रयोग करनेसे जलौकाका विष दूर
होता है ॥ २०५॥२०६॥

कीटविषकी चिकित्सा ।

कीटघ्नन्तुलसीमूलं पीतं यष्टीसुक-
लिकतम् । भेघनाद्वृहन्मूलं तथा ग-
व्येन सर्पिषा ॥ २०७ ॥ क्षीरिवृक्ष-
त्वचा लेपः कीटदष्टविषापहः ॥ २०८ ॥

तुलसीकी जड़ और मुलैठीका कल्क बनाकर पान
करनेसे अथवा काँटोवाली चौलाईकी जड़को पीस
कर गायके धीके साथ सेवन करनेसे अथवा क्षीर
वृक्षो (पीपल, पाखर, बड, बेलियापीपल अथवा
पारिसपीपल) की छालको पीसकर लेप करनेसे
कीडोका विष दूर होता है ॥ २०७ ॥ २०८ ॥

हिंशुकुष्ठनतव्योषपाठाजन्तुघ्नसैन्धवैः ।
सक्षारातिविषैस्तुल्यैर्लेपः कीट-
विषप्रणुत् ॥ २०९ ॥

हींग, कूठ, तगर, त्रिकुटा, पाढ, वायविडग,
सैधानमक, जवाखार और अतीस इन सबको समान
भाग लेकर एकत्र पीसकर लेप करनेसे कीटविष
नष्ट होता है ॥ २०९ ॥

लाङ्गलीनिर्विषालावृजालिनीमूलबी-
जकैः । लेपो धान्याम्बुना पिष्टः पिं-
डिकाकीटनाशनः ॥ २१० ॥

कलिहारी, निर्विषी, तोम्बी, कढवीतोरई और
मूलीके बीज इन सबको एकत्र कांजीमे पीसकर लेप
करनेसे कीटजनित पिडिका दूर होती है ॥ २१० ॥

वचाहिंशुविडङ्गानि सैन्धवं गजपि-
पली । पाठाप्रतिविषाव्योषं काश्य-
पेन विनिर्मितम् ॥ दशाङ्गमगदं पी-
त्वा सर्वकीटविषं जयेत् ॥ २११ ॥

वच, हींग, वायावेडग, सैधानमक, गजपीपल,
पाढ, अतीस और त्रिकुटा इन सबको एकत्र पीस
लेवे । इसको दशांगमगद कहते हैं । इसको पान
करनेसे सबप्रकारके कीडोका विष दूर होता है, इस-
को काश्यप ऋषिने निर्माण किया है ॥ २११ ॥

पिपीलिकादिविषकी चिकित्सा ।
पिपीलिकाभिर्दष्टानां मक्षिकामश-
कैरतथा । गवां मूत्रयुतो लेपः कृष्ण-
वल्मीकमृत्कृतः ॥ २१२ ॥

चैटी, मक्खी और मच्छरके काटनेपर काली
बांधीकी मिट्टीको गोमूत्रमें पीसकर लेप करो ॥ २१२ ॥

गुग्गुलुधूपं दत्त्वा कोमलरविषत्रापि-
ण्डिका सवृता । बद्धा क्षतेऽतिलो-
हितकाचण्डादंशविकृतिहरी ॥ २१३ ॥

ग्रथम गूगलकी धूनी देकर पश्चात् कोमल आकके
पत्तोको एकत्र पीसकर गोलासा बनाकर उसको
घीसे चुपडकर घावपर बांधनेसे अत्यन्त लाल ततैया-
का विष तत्काल दूर होता है ॥ २१३ ॥

सर्जरसेन सेको संदेशेनापि कण्ट-
कोद्धरणम् । वरटीदष्टाविषस्य प्रश-
मनमेतद्वयं दष्टम् ॥ २१४ ॥ मरिचं
नागरोपेतं सिन्धुसौवर्चलान्वितम् ।
फणिज्जकरसं हन्यालेपनाद्वरटीविष-
म् ॥ २१५ ॥

रालका सिंचन करनेसे या संदेशयन्त्रसे गवाडा
हुआ वरटीदष्टका शेष रहा काटा (डक) शीघ्र
निकलजाता है । कालीमिरच, सोठ, सैधानमक और
फालानमक इन सबको एकत्र पीसकर वनतुलसीके
रसमें मिलाकर लेप करनेसे वरटी (ततैया) का
विष दूर होता है ॥ २१४ ॥ २१५ ॥

शतपुष्पासमायुक्तं सैन्धवं परिपेषि-
तम् । सघृतं लेपनं दद्यान्मक्षिका-
विषनाशनम् ॥ २१६ ॥

सॉफ और सैंधेनमकको एकत्र पीसकर घीमें मिलाकर लेप करनेसे मक्खीका विष दूर होता है ॥ २१६ ॥

केशरं तगरं शुण्ठी मरिचश्च प्रलेपना-
त् । मक्षिकादंशजा पीडा नाशं
याति ध्रुवं नृणाम् ॥ २१७ ॥

केशर, तगर, सोंठ और कालीमिरच इन सबको एकत्र पीसकर प्रलेप करनेसे मक्खीके डककी पीडा निश्चय शांत होती है ॥ २१७ ॥

स्तुक्क्षीरपरिपिष्टेन बीजेन परिले-
पनम् । शिरीषस्य व्रजत्यस्तं विषं
दुर्द्वर्जं क्षणात् ।

शिरसके बीजोंको थूहरके दूधमें पीसकर लेप करनेसे तत्काल मेंडकका विष दूर होता है ।

दुर्वारापि व्यथा क्षिप्रं मत्स्यदंशात्
तत्क्षणात् ॥ २१८ ॥

अंकोलके पत्तोंकी धूप देनेसे अत्यन्त दुःसाध्य मछलीके डककी पीडा भी तत्काल शांत होती है २१८

अङ्कोटपत्रधूपेन धूपिता संप्रशाम्य-
ति । कटुतैलसक्तुकेशानां धूपादंश-
स्य च व्यथा ॥ २१९ ॥ यवतिक्ततै-
ललेपान्मीनजस्य विनश्यति ॥ २२० ॥

कडवा तेल, सन्नू और वाल इनको एकत्र पीसकर धूनी देनेसे अथवा इन्द्रजौ और तेलका लेप करनेसे मछलीका विष दूर होता है ॥ २१९ ॥ २२० ॥

वृकव्याघ्रतरक्षशृगालहयशृङ्गकैः ।
दष्टानां तत्क्षणात्तैलम्रक्षणश्च चि-
कित्सितम् ॥ २२१ ॥

वृक (भेडिया), व्याघ्र (बाघ), तरक्ष (तेंदु), ऋक्ष (रीछ), शृगाल (गीदड़), घोडा और सॉ-
गवाले जीवोंके काटनेके स्थानमें तत्काल तेलको मले ॥ २२१ ॥

घण्टाबीजस्य पत्रं वा मूलं पिष्टं प्रले-
पनात् । निहन्ति शूकजं घोरं विषं
कूपमाण्डपत्रकम् ॥ २२ ॥

मोखेके बीज या पत्ते अथवा जडको पीसकर प्रलेप करनेसे आंर पेठके पत्तोंसे शूकका विष दूर होता है ॥ २२२ ॥

सेक्षुसर्जरसोपेतं सर्षपापत्रकैः सह ।
सुवर्णभास्करतरोः कुसुमैरर्जुनस्य
च ॥ धूपो वा धूपितो हन्ति विषं
स्थावरजङ्गमम् ॥ २२३ ॥

ईख, राल, सरसों, धतूरा और आकके पत्ते और अर्जुनके फूल इन सबको एकत्र करके धूनी देनेसे स्थावर आंर जंगम विष दूर होता है ॥ २२३ ॥

न तत्र कीटा न विषा दुर्दुरा न स-
रीसृपाः । न कृत्यकर्म तत्र स्या-
द्दूपोऽयं यत्र दह्यते ॥ २२४ ॥

जिस स्थानमें यह धूप दी जाती है, वहां कीट, मेंडक आंर सॉप आदि कुछ भा नहीं करसकते और इनका विष भी तत्काल दूर होजाता है ॥ २२४ ॥

विल्वाढकीयवक्षारपाटलावह्निको-
त्पलम् । श्रीपर्णीशाल्मलियुक्ता निः-
क्वाथ्य प्रोक्षणं परम् ॥ स रोगी प्रोक्षि-
तस्तेन सद्यो भवति निर्विषः ॥ २२५ ॥

वेलगिरी, अरहर, जवाखार, पाढल, चीता, कमल, कुम्भेर और सेमल इन सबका काथ बनाकर उसके द्वारा सेचन करनेसे रोगी तत्काल विषकी बाधासे रहित होता है ॥ २२५ ॥

छत्री जर्जरपाणिश्च चरेद्गात्रौ तथा
दिवा । तच्छायाशब्दवित्रस्ताः
प्रणश्यन्ति हि पत्रगाः ॥ २२६ ॥

छत्री ओर जर्जरपाणिनामक पक्षी रात्रिमें और दिनमें विचरण करते हैं, उनकी छाया और शब्दोंसे सर्प त्रासको प्राप्त होकर नष्ट हो जाते हैं । इस कारण ऐसे पक्षियोंको घरमें रखना चाहिे ॥ २२६ ॥

असाध्य लक्षण ।

सोत्कम्पं पुलकावृतं प्रतिमुहुर्वक्त्रं स-
मालोकते दन्तेनाधरपल्लवं दशति
चच्छीतान्वितः कूजति ॥ यस्तापं
जहतामुपैति नितरामन्तश्च सोत्का

ण्ठते यद्गस्मास्थिसितामलांबर-
वती रौद्री श्मशानस्थली ॥ २२७ ॥

जो साँपका काटाहुआ मनुष्य कंफ और रोमांच-
युक्त होकर धारदार मुखको देखे, दाँतोसे होठोको
चावे, शीतयुक्त होकर कूजे, निरंतर संतापको प्राप्त हो
और अन्तःकरणकी गतिसे हीन तथा जिसको असह्य
वेदना हो ऐसा साँपका डसा हुआ रोगी भस्म, अस्थि
और निर्मल तथा सफेद वस्त्रके समान श्वेत और
अत्यन्त भयंकर श्मशानस्थलकी सेवा करता है २२७

नेत्रे शुक्लतरे च यस्य यदि वा मृत्युं
व्रजेदंशकः सन्ध्यायाश्च सुरेन्द्र-
गोपसदृशे रात्रौ च नीलप्रभे ॥ दं-
शे रक्तजलाविलेऽतिसुभगे भक्तं न
किञ्चिद्विषो मात्रं मा लभते तदेव
नियतं पित्रालयं गच्छति ॥ २२८ ॥

जिसके नेत्र अधिक सफेद हो ऐसा सर्पका काटा
हुआ मनुष्य शीघ्र ही मृत्युको प्राप्त होता है । तथा
जिसके नेत्र संध्याके समय इन्द्रगोप (वीरवहूटी) के
समान और रात्रिमें नीलके समान हो तथा काटने-
का स्थान कलुषित लाल जलके समान और अत्यन्त
सुभग हो एव भोजनसे द्वेष न हो ऐसा विपरीत
क्षणमात्रमें यमराजके घरको जाता है ॥ २२८ ॥

नासावर्त्म विहाय यस्य पवनो व-
क्त्रेण याति द्रुतं नेत्रे याति विका-
सिते वहति यो ग्रीवाश्च वक्रा-
मलम् ॥ चन्द्रं पश्यति भानुबिम्ब-
सदृशं सूर्यं शशाङ्काकृतिं दृष्टो या-
ति स एव गेहमचिरात् कालाभि-
धानस्य वै ॥ २२९ ॥

जिसका श्वासवायु, नासिकाके छिद्रोंको छोड़कर
मुखके द्वारा शीघ्रतासे निकले, नेत्र फैलजायँ, ग्रीवा
टेही होजाय, मुख उज्ज्वल होजाय और जो चन्द्रमा
सूर्यमण्डलके समान देखे और सूर्यमण्डलको
चन्द्रमण्डलके समान देखे वह सर्पका काटा हुआ
रोगी शीघ्र ही यमसेदिरको जाता है ॥ २२९ ॥

पथ्य ।

विरुद्धाध्यशनक्रोधक्षुद्रयायासभे-
थुनम् । वर्जयेद्विपदुष्टोऽपि दिवास्वप्नं
विशेषतः ॥ २३० ॥

विपरीत-विरुद्ध भोजन, भोजनपर भोजन या
अधिक भोजन, क्रोध, क्षुधा, भय, परिश्रम, मैथुन
और दिनमें सोना इन सबको विशेषकरके त्याग-
देवे ॥ २३० ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकाया विपनिदानचिकि-
त्साधिकार समाप्त ॥ ७१ ॥

अथ जलदोषादियोगाधिकार ।



भोजनादौ तु संभुक्ते शुण्ठिराज्यभ-
योत्थितम् । कल्कन्तु सहते नित्यं
नानादेशोद्भवं जलम् ॥ १ ॥

भोजनसे पहिले सोठ और हरडके कल्कको घीमें
मिलाकर सेवन करनेसे, अनेक देशोंके जलको पान
करनेसे उत्पन्न हुए विकार शांत होते हैं ॥ १ ॥

महार्द्रकयवक्षारौ पीत्वा चैवोष्णवा-
रिणा । नानादेशोद्भवं चैव वारिदोष-
मपोहति ॥ २ ॥

आर्द्रकपक और जवाखार इनको गरम जलके
साथ पान करनेसे, अनेक देशोंके जलको पान करनेसे
उत्पन्न हुए रोग शांत होते हैं ॥ २ ॥

नागरंगफलचोचमातपे शोषितं तद-
नुचूर्णितमेकम् । कर्षमानमुपयुञ्ज्य गु-
डेन वारिकर्म कुरुते न कदापि ॥ ३ ॥

नारंगी और केलेकी फली इन दोनोंको छायामें
सुखाकर चूर्ण करले । इस चूर्णको एक तोला परिमाण
लेकर गुड़के साथ सेवन करनेसे किसी देशका पान
किया हुआ जल कुछभी विकार नहीं करता है ॥ ३ ॥

यो लेटि शयनसमये मधुमिश्रं बीज-
पूरदलचूर्णम् । स च पीडाकरवातप्र-
सरनिरोधात् सुखं स्वापिति ॥ ४ ॥

जो विजौरेनीचूके पत्तोंका चूर्ण करके उसको शहदमें मिलाकर सोतेसमय रात्रिमें चाटे तो वायुके वेगका निरोध होनेसे उत्पन्न हुई वातकी पीडा शांत होती है और वह मनुष्य सुखसे सोता है ॥ ४ ॥

**दत्त्वैव दुग्धभक्तं विप्रायोत्पाटय सि-
तवलामूलम् । पुष्ये कन्यापिष्टं दत्त-
मनिच्छाहरं भक्ष्ये ॥ ५ ॥**

प्रथम ब्राह्मणको दूध और भात देकर पश्चात् सफेदफूलकी खिरैटी अथवा कंधीकी जड़को उखाड़ कर लोवे । फिर उसको पुष्यनक्षत्रमें कन्याके हाथसे पिसवाकर भक्षण करे तो अनिछा दूर होती है ॥ ५ ॥

**भूयः स्वार्त्तवशोणितभावितगोरोच-
नरचिततिलकानि । नारी यं यं प-
श्यति पुरुषं तं तं वशीकुरुते ॥ ६ ॥**

अपने आर्त्तवके रुधिरमें गोलोचनको भिजोकर उसका अपने मस्तकपर तिलक लगाकर स्त्री जिस जिसको देखती है, उसी उसी पुरुषको वह अपने वशमें करलेती है ॥ ६ ॥

**सुरदारुशर्वरीद्वयकमलोद्भवकेशरैः
कृतो लेपः । दुर्जययोषिद्विहितो
रुचिकर इति गीयते बहुभिः ॥ ७ ॥**

देवदारु, हलदी, दारुहलदी और कमलकी केशर इन सबको एकत्र पीसकर लेप करनेसे अत्यन्त कठिनतासे प्राप्त होनेवाली स्त्री भी सहज ही वशमें होजाती है ॥ ७ ॥

**जम्बूधातकिपणैस्तद्भवकल्कैश्च धूपि-
ता योनिः । त्यजति समस्तविकारं
जन्मान्तरसञ्चितञ्चापि ॥ ८ ॥**

जामुन और धायके पत्तोंका कल्क बनाकर उस की योनिको घूनी देनेसे जन्मान्तरोंके संचित किये हुये भी समस्त योनिविकार दूर होते हैं ॥ ८ ॥

**नालसमेतं कमलं पिष्ट्वा क्षीरेण व-
र्त्तिता गुटिका । योषिद्योनों विहिता
तदेव कन्याकरं चित्रम् ॥ ९ ॥**

कमलको नालसमेत दूधमें पीसकर बत्ती बनाले-
वे । बत्तीको योनिमें रखनेसे कन्याकी समान योनि
होजाती है ॥ ९ ॥

**तालचन्दनसहितं कुटजकदम्बोद्भवं
फलं पिबति । आसवमिश्रं कान्ता
या सा वन्ध्या भवेन्नियतम् ॥ १० ॥**

हरिताल और चन्दन तथा कूडेके फूल और कदम्बके फूलोंको आसवमें मिलाकर जो स्त्री पान करती है वह अवश्य बंध्या होजाती है ॥ १० ॥

**एकं भाक्षिकमिश्रं लेपात्कोशातकी-
भवं चूर्णम् । योन्यां वरांगपाते कुरुते
रेतः सुतिस्तस्याः ॥ ११ ॥**

तोरइयोंके चूर्णको शहदमें मिलाकर योनिके ऊपर लेप करनेसे संभोगके समय पुरुष शीघ्र रख-
लित होजाता है ॥ ११ ॥

**पथ्योपभोगविधिना परितः संवेष्ट्य
वाससा त्रिवृताम् । विहिता जलौका
योनों पातस्तनयोः कदापि न
स्यात् ॥ १२ ॥**

उपभोगकी विधिसे एक हरडको लेकर उसके ऊपर चारो ओर तीनवार कपडेको लपेटकर उसकी जलौका बनाकर योनिमें रखनेसे स्तनोका पात कदापि नहीं होता है ॥ १२ ॥

**चूर्णं ह्यगन्धायाः सितया सहितञ्च
सर्पिषा लीढम् । विदधाति नष्टनिद्रे
निद्रामाश्वेव सिद्धमिदम् ॥ १३ ॥**

असगन्धका चूर्ण बनाकर उसमें मिश्री और शहद मिलाकर सेवन करनेसे नष्टहुई निद्रा शीघ्र ही आजाती है ॥ १३ ॥

**किमत्र चित्रं यदि वज्रपणीवचाश्व-
गन्धाजलशूकचूर्णम् । अन्तर्विदग्धं
नवनीतमिश्रं करोति भेदं गजमेढ-
तुल्यम् ॥ १४ ॥**

हडसघारी, वच, असगंध और कुपित जलके सूक्ष्म जीव, सिसवार, इन सबको चूर्ण करके इसप्रकार पकावे, कि, जिससे बाहर धुआँ न निकले। पश्चात् उस चूर्णको मैनी घीमें मिलाकर लिंगपर लेप करे तो लिंग हाथीके लिंगके समान स्थूल होजाता है ॥ १४ ॥

**मुष्कशिराजं मूलं दृढमंगुल्या निपी-
ड्य रतिकाले । चिन्तान्तररहितम-
नास्तंभितरेताश्च्युतिं जयति ॥ १५ ॥**

सम्भोगके सैन्य अण्डकोपकी नसोकी जडको अंगुलियोसे खूब पीडन करके चितारहित होकर मैथुन करे तो वीर्यपात नहीं होता ॥ १५ ॥

शुष्केन्दीवरकुसुमं तंडुलसहितं सदा-
ऽशितं सायम् । तनुते सुगन्धिवदनं
विकसितनीलोत्पलामोदम् ॥ १६ ॥

नीले कमलको सुखाकर चावलोके साथ संध्याके समय भक्षण करनेसे मुखमें महासुगन्धि उत्पन्न होती है और मुखमण्डल विकसित नीलकमलके समान होजाता है ॥ १६ ॥

कोमलवरुणजपत्रं करमृदितं सदा
स्तने निहितम् । तद्गतपुंसां वृद्धिं
हरिद्रुतसिद्धमिदं दृष्टम् ॥ १७ ॥

वरनेके कोमल पत्तोंको हाथसे मर्दन करके स्तनों पर लेप करनेसे स्तन वृद्धिको प्राप्त होते है ॥ १७ ॥

कच्छपमस्तकचरणं तिलजे सिद्धं वि-
नाशयत्यचिरात् । धातुक्षीणं षण्ठं
कुरुते बलं रतौ तथोग्रम् ॥ १८ ॥

कछुवेके मस्तक और पाँवोंको तिलके तेलमें पकाकर सेवन करे तो वह तल शीघ्र ही धातुक्षीणता ओर नपुसकताको दूर करके अपूर्व पुरुषार्थको उत्पन्न करता है और रतिके समय अपूर्वबलको करता है ॥ १८ ॥

शमयति गोक्षुरुचूर्णं छागक्षीरेण सा-
धितं समधु । भुक्तं क्षपयति षाण्ठ्यं
यज्जनितं प्राक् प्रयोगेण ॥ १९ ॥

गोखुरुओंके चूर्णको बकरीके दूधमें पकाकर और शहद मिलाकर सेवन करनेसे पूर्व किसी औषधि प्रयोगसे उत्पन्न हुई नपुसकता शीघ्र दूर होती है १९ ॥

निर्गुण्डीकनकवासाश्रीफलामलका-
सनोत्थपत्राणि । गन्धर्वहस्तमूलं
दूर्वा कुसुमं तथा रजनी ॥ २० ॥
सिद्धार्थद्वगजत्वगिति समभागं प्र-
क्षिप्य नवनीते । उद्धर्त्तनं विधेयं स-
ततं बालिनाशनं दृष्टम् ॥ २१ ॥

निर्गुण्डी, धतूरा, अद्धसा, बेल, आमले, विजय-
सारके पत्ते, अण्डकी जड, दूब, नागकेशर, हलदी,

सफेद सरसों और पमारकी छाल इन सबको समान भाग लेकर नैनीघीमें मिलाकर उबटन करनेसे बली (शरीरमें विना ही समय बलियोका पडना) का नाश होता है ॥ २० ॥ २१ ॥

इति श्रीवङ्गसेने जलदोषवीर्यस्तम्भदियो-
गाधिकार समाप्त ॥ ७२ ॥

अथ रसायनाधिकार ।

माषस्याढकमादाय जलद्रोणे विपा-
चयेत् । अर्धावशेषं तत्पूतं दत्त्वा चे-
शुरसं ततः ॥ १ ॥ आर्द्रकक्ष्य रस-
श्चैव प्रस्थत्रयसमन्वितम् । संयोज्य-
मेकतः कृत्वा स्थापयेद्भाजने दृष्टे ॥ २ ॥
त्रिरात्रे पञ्चरात्रे वा माषचूर्णं विनिः-
क्षिपेत् । मासेन तज्जातरसं दशरात्रं
स्थितं तथा ॥ ३ ॥ शुक्तञ्च तत्प्रयो-
ज्यं स्यात्तैले बस्तौ घृतेऽपि वा ।
एतच्छुक्तं प्रशंसन्ति मन्दाग्नेर्दीपनं
परम् ॥ ४ ॥

एक आढक उडदोंको लेकर एक द्रोण जलमें पकावे । जब पकते पकते जल आधा भाग बाकीरह जाय तब उसको उतारकर छान लेवे । फिर उसमें ईखका रस और अदरखका रस तीनप्रस्थ मिलाकर उसको किसी उत्तम पात्रमें भर कर तीन दिनतक अथवा पांच दिनतक रक्खा रहने देवे । पश्चात् उसमें उडदोंका चूर्ण मिलादेवे इसप्रकार रक्खा रहनेसे एक महीनेमें उसमें रस उत्पन्न होजायगा । फिर एक महीना दशदिनतक उसी प्रकार रक्खा रहनेके पश्चात् उसको निकाल लेवे । इसको "शुक्त" कहते है । इस शुक्तको तेल, बस्तिकर्म अथवा घृतमें प्रयोग करे । यह शुक्त मन्दाग्निको दीपन करनेके लिए परम श्रेष्ठ है ॥ १-४ ॥

मधुशुक्त ।

जम्बीरस्य फलरसं पिप्पलीमधुसं-
युतम् । मधुभाण्डे विनिक्षिप्य रसा-

द्वै तत्पिधापयेत् ॥ मासेन तज्जात-
रसं मधुशुक्तमुदाहृतम् ॥ ५ ॥

जम्भीरीनींबूका रस, पीपल और शहद इन सबको एकत्र मिलाकर शहदके वर्तनमें भरकर और ढककर रखदेवे । एक महीनेमें इसमें रस उत्पन्न होजाता है । इसको मधुशुक्त कहते हैं ॥ ५ ॥

गुडतक्र ।

गुडमधुकाञ्जिकतक्रं यथोत्तरं द्विगु-
णभागसंवृद्धम् । न्यस्तन्तु धान्यरा-
शौ त्रिदिवसमिति भवेच्छुक्तम् ॥ ६ ॥

गुड १ भाग, शहद २ भाग, कौजी ४ भाग और तक्र (लौंछ) आठ भाग इन सबको एकत्र मिलाकर एक वर्तनमें करके धानोंके ढेरमें गाड देवे । तीन दिन तक रंक्खारहनेपर यह शुक्त होजाता है ॥६॥

पिप्पल्यादिषट्घृत ।

पिप्पलीक्षीरसंसिद्धं सर्वरोगहरं घृ-
तम् । कालीयकहरिद्राभ्यां कामला-
मंहनुत्परम् ॥ ७ ॥

पीपलके कल्कसे दूधमें घृतको पकावे । यह पिप्पली घृत सर्वप्रकारके रोगोंको दूर करता है । पीतचन्दन, दाखलदी और हलदीके कल्कके द्वारा पकाया हुआ घृत कामला और प्रमेहको दूर करता है ॥ ७ ॥

बृहतीरसकल्काभ्यां दुष्टकासक्षयाप-
हम् । गुडूचीरसकल्काभ्यां वातरक्त-
विकारनुत् ॥ ८ ॥

बड़ी कटेरीके रस और कल्कके द्वारा पकाया हुआ घृत दुष्ट खाँसी और क्षयरोगको दूर करता है । गिलोयके स्वरस और कल्कके द्वारा घृतको सेवन करनेसे वातरक्तके विकार शमन होते हैं ॥ ८ ॥

खदिराष्टकसंसिद्धं श्वित्रकुष्ठविसर्प-
नुत् । मृद्धीकारसकल्काभ्यां रक्तपित्त-
ज्वरांतकृत् ॥ ९ ॥ पिप्पल्यादिघृतं
षट्कं वैदहाधिपकीर्तितम् ॥ १० ॥

खदिराष्टककी औषधियोंके द्वारा पकाया हुआ घृत श्वेत कुष्ठ और विसर्परोगको नष्ट करता है । दाखके स्वरस और कल्कके द्वारा पकाया हुआ घृत रक्तपित्त

और ज्वरको दूर करता है । यह पिप्पली आदि छः घृत विदेह आचार्यने कहे हैं ॥ ९ ॥ १० ॥

पालिवर्द्धनचतुःश्लेह ।

आनूपजो रसो मज्जा वसा तैलं नवं
घृतम् । रसक्षीरं पचेत्सम्यगवाप्य
मधुरं गणम् ॥ ११ ॥ अश्वगन्धाम-
पामार्गं तथा लाक्षारसं समम् । अथ
सिद्धश्च पूतश्च चानुगुप्तं निधापयेत्
॥ १२ ॥ तेनाभ्यङ्ग्य सदा कर्णपा-
लिश्च सुप्रमर्दयेत् । अनेन पाल्यो
वर्द्धन्ते नीरुजो निरुपद्रवाः ॥ मृदु-
पुष्पसमाः स्निग्धा जायन्ते भूषण-
क्षमाः ॥ १३ ॥

आनूपदेशके जीवोंका मासरस, मज्जा, चर्बी, तेल, नवीन घी, रस और दूध इनको अच्छे प्रकारसे पकावे । पकते समय इसमें मधुरगणकी औषधिया, असगन्ध, चिरचिटा और लाखका रस ये सब समान भाग मिलाकर डाल देवे । जब पककर वह अच्छे प्रकारसे तैय्यार होजायें तब उसको उतारकर वस्त्रमें छान करके उत्तम पात्रमें भरकर और उसका मुँह ढककर रखदेवे । इसके पश्चात् इस तेलको सदैव कर्णपालिपर अभ्यंग करके और कर्णपालिको अच्छे प्रकार मर्दन करनेसे रोग उपद्रवरहित होकर कर्णपालि बढती हैं पुष्पके समान कोमल चिकनी और भूषण धारण करनेको समर्थ होजाती है ॥११-१३॥

शिवगुटिका ।

शिलाजतु षोडशपलं त्रिनिवारं वि-
भावयेत् । बलाया दशमूलस्य गु-
डूच्याः कर्कटस्य च ॥ १४ ॥ वराया
मधुयष्ट्याश्च रसमध्ये च वारिणा ।
क्षीरे शकृत्क्रमेणैव सप्तकृत्वः ततो
द्रुतम् ॥ १५ ॥ काकोलियुग्मघन-
पुष्करवद्विरास्त्रामेदायुगर्द्धिचविका-
गजपिप्पलीनाम् । पाठाद्विजीरक-
निकुम्भविदारियुग्म-वीरावरीमधु-
फलांशुमतीद्वयानाम् ॥ १६ ॥ पलि-

कानामपां द्रोणे सिद्धानां पादशेषिते । काथे भात्रितमित्थं वा गिरिजं द्विपलञ्च तत् ॥ १७ ॥ युञ्ज्यात्कर्कटशृङ्गीधात्री-व्योषतालीसकुडवेन । चूर्णपलेन विदाय्यास्त्वक्क्षीर्या वा कर्षद्गुग्मेन ॥ १८ ॥ द्विपलेन चतुर्जातात्तैलघृतक्षौद्रशर्कराभिश्च । तद्विपलाद्विगुणाभिः कुर्याद्गुटिकास्ततोऽक्षसमाः ॥ १९ ॥ ताः सिद्धा नवकुम्भे शुष्के जातिपुष्पाधिवासिते स्थाप्याः । तासामेकां खादेत्प्रतिदिनमनुपानं पेयञ्च ॥ २० ॥ क्षीररसदाडिमाम्भः शीतजलमधुरासवान्यतमम् । जीर्णात्रे लघुभोज्यं यूषः पर्यासि पिशितनिर्यूहैः ॥ २१ ॥ सप्ताहमात्रमेवं सामान्यमतः क्रमं भवेत्परितः । भुक्तस्यान्ते प्राग्वा गुटिका न विरुध्यते चैषा ॥ २२ ॥ निष्पापा भूरिफला परिहारसुखोपयोजिता जयति । प्रबलवातशोणितमूरुस्तम्बं ज्वरं दीर्घम् ॥ २३ ॥ भगमूत्रशुक्रदोषान्प्लीहाशः-पांडुहृद्यकृदोषान् । वर्धमविगुल्मपीनसहिक्काक्रासारुचिश्वासान् ॥ २४ ॥ विद्रधिमुदरं कृच्छ्रं धिक्वं पंठी क्षयं मदं मूर्च्छाम् । उन्मादमपस्मारं मुखरोगशिरोगदस्तभान् ॥ २५ ॥ आनाहमतीसारं हलीमककामलाग्रहाणिरोगान् । ग्रन्थार्विद्रांश्च पिडिकाभगन्दरं गण्डमालाञ्च ॥ २६ ॥ अतिकाश्यमतिस्थौल्यं स्वेदमतिशीपदं गुदे कीलान् । दंष्ट्राविषं समूलङ्गरप्रयोगान् सुघोरांश्च ॥ २७ ॥ मन्त्रौषधिप्रयोगान् विप्रमुक्तान् भौतिकांस्तथा भवान् । पाप्माऽलक्ष्मी ज्ञेयं गुटिका

शिवा नाम्ना प्रथिता ॥ २८ ॥ वृष्या बल्या धन्या कान्तियशःश्रीवर्द्धनी मेध्या । कुरुते स्त्रीबलभतां जयं विवादे मुखस्थाञ्च ॥ २९ ॥ वलीपलितरोगरहितो न भवति गात्रं सुबद्धमति चैव । वर्षद्वयप्रयोगाद्द्वर्षशतचतुष्टयं जीवेत् ॥ ३० ॥

शिलाजीतको १६ पल लेकर खिरैंटी, दशमूल, गिलोय, काकडाशिगी, त्रिफला और मुलैठी इन प्रत्येकके काथमे तीन तीनवार भावना देवे । फिर दूधमें और गोबरके रसमे क्रमसे सात २ वार भावना देकर पश्चान् काकोली, क्षीरकाकोली, नागरमोथा, पोहकरमूल, चीता, रायसन, मेदा, महामेदा, ऋद्धि, चव्य, गजपीपल, पाठ, जीरा, कालाजीरा, दंती, विदारीकंद, क्षीरविदारी, बड़ी शतावर, शतावर, दाख, शालिपर्णी और पृश्निपर्णी ये प्रत्येक औषधि चार चार तोले लेकर एक द्रोण जलमें पकावे । जब पकते २ जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छानलेवे । फिर इस काथमें उपर्युक्त शिलाजीतकी भावना देवे । इस प्रकार शुद्ध की हुई शिलाजीतमेसे आठ तोले शिलाजीत तथा काकडाशिगी, आमले, त्रिकुटा और तालीशपत्र ये सब औषधि एक २ कुडवपरिमाण, एवं विदारी कंदका चूर्ण ४ तोले, वंशलोचन ४ तोले, चातुर्जातककी औषधियाँ आठ तोले, तेल २ पल, घी ४ पल, शहद ८ पल, और मिश्री १६ पल लेकर सबको एकत्र मिलाकर बहेडेके समान गोलियां बनालेवे । इस प्रकार तैयारकी हुई उन गोलियोको चमेली आदिके फूलोंके सुवासित किये हुये शुष्क और नवीन घडेमे भरकर रखदेवे । प्रतिदिन उन गोलियोमेसे एक गोली खाय और ऊपरसे दूध, मांसरस, दाडिमक स्वरस, शीतलजल, शहद और आसव इनमेंसे किसी एकका अनुपान करे । भोजनके जीर्ण होनेपर हलका भोजन, यूष, दूध और मांसका रस इनका सेवन करे । इस प्रकार सात दिनतक इसपर सामान्य भोजन करे । फिर भोजन करनेके पश्चात् अथवा भोजन करनेसे पहिले सेवन करनेपर भी यह गुटिका कुछ बाधा नहीं करती । यह शिवनामक गुटिका पापरहित विशेष फलक्रेद्देनवाली और

विनापरहेजके सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है । यह गुटिका प्रबल वातरक्त, ऊरुस्तम्भ, पुराना ज्वर, भग, मूत्र और शुक्रके दोष, प्लीहा, अर्श, पाण्डुरोग हृदयरोग, यकृतुरोग, वर्ध्म, वमन, गुल्म, पीनस, हिचकी, खांसी, अरुचि, श्वास, विद्रधि, उदर-रोग, मूत्रकुच्छ, श्वित्रकुष्ठ, नपुंसकता, क्षय, मद, मूच्छी, उन्माद, अपस्मार, मुखरोग, शिरोरोग, गिरकी जडता, आनाह, अतिसार, हलीमक, कामला, संग्रहणी, ग्रंथि, अर्बुद, पिडिका, भगन्दर, गण्डमाला, अत्यंत कृशता, अत्यंत स्थूलता, स्वेद, अतिशय श्लेष्मदरोग, गुदकील, दंष्ट्राविष, मूल-विष, गरविष, शत्रुओंके द्वारा किये हुए अनेकप्रकार-के मंत्र और औषधियोंके प्रयोग, भौतिक बाधा, पाप और अलक्ष्मी इन सबको दूर करती है । यह गोली वीर्यवर्द्धक, बलकारक, धन्य, कांति, यश और लक्ष्मीको बढ़ानेवाली, तथा मेधाजनक है । इस गोलीको सुखमे रखनेसे मनुष्य स्त्रियोंको प्रिय और विवादमें जयको प्राप्त होता है । इसको सेवन करने वाला मनुष्य बली और पलित्तादि रोगोंसे रहित होजाता है । उसका शरीर सदैव सुगठित और निरोग रहता है । इसको दो वर्ष पर्यंत सेवन करनेसे मनुष्य चारसौ वर्षतक जीता रहता है ॥ १४-३० ॥

अथ गुग्गुलुरसायन ।

त्रिफलाशनखदिरामृतवर्षाभूभृङ्गगो-
क्षुरुकाथे । सार्द्धाठके तु गुग्गुलुप-
लानि त्रिंशच्च लेहवाद्विपचेत् ॥ ३१ ॥
मधुघृतसिताविमिश्रं लिहेन्नरः का-
न्तिबलबुद्धियुतः ॥ तथाऽगर्दर्विमु-
क्तो जीवति संवत्सरांश्चिंशतान् ॥ ३२ ॥

त्रिफला, विजयसार, खैर, गिलोय, श्वेत पुनर्नवा, भाँगरा और गोखुरुओंके डेढ आठक काथमें तीस पल गूगलको लेहके समान पकावे । फिर उसमें श-हद, धी और मिश्री मिलाकर उसको अपनी शक्त्यनुसार सेवन करे । यह अवलेह-कांति, बल और बुद्धिको उत्पन्न करता है । इसको सेवन करनेवाला मनुष्य सम्पूर्णरोगोंसे रहित होकर तीनसौ वर्ष पर्यंत जीता रहता है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

अथ गन्धककल्प ।

चूर्णीकृत्य पलानि पञ्च नितरां ग-
न्धाश्मनो यत्नतस्तच्चूर्णं त्रिगुणे च
मार्कवरसे छायाविशुष्कीकृतम् । प-
थ्याचूर्णमथो तथा मधुघृतं प्रत्येक-
मेकं पलं वृद्धो यौवनमेति प्राज्ञ-
युगलं खादेन्नरः प्रत्यहम् ॥ ३३ ॥

उत्तम आमलासारगंधकको पांच पल लेकर उसका बारीक चूर्ण करके तिगुने भाँगेके रसमें भावना देकर छायामें सुखालेवे । पश्चात् उसमें हरडोंका चूर्ण १ पल, शहद १ पल और घी एक पल मिलाकर रखदेवे । इसको प्रतिदिन दो बार सेवन करनेसे वृद्धमनुष्य भी युवा अवस्थाको प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥

अथ गन्धकरसायन ।

गन्धकस्यार्द्धकर्षन्तु मरिचं शाणमा-
त्रकम् । असिनाम्बरमष्टांशं शिला-
यां चूर्णितं शुभम् ॥ ३४ ॥ एतच्चूर्ण-
त्रयं तैले तिलजे दिवसत्रयम् । वर्त्ति-
त्रयं सभारभ्यघृते वा स्थापितं तथा
॥ ३५ ॥ तदुद्धृत्य क्षीरपात्रे दीपं प्र-
ज्वाल्य बुद्धिमान् । पातयेद्वर्त्तिसत्त्वं
च तद्गवा रसरक्तिका ॥ ३६ ॥ पर्ण-
त्रयं समारोप्य तद्गवाद्भुञ्जकद्वयम् ।
संमूच्छर्यं भक्षयेत्प्रातः क्षेत्रपालबलिं
ततः ॥ ३७ ॥ दत्त्वा तु विधिना कृ-
त्वा कामचारी भवेत्सदा । न चात्र
परिहारोस्ति विहाराय नृणां सदा
॥ ३८ ॥ बलीपलितनाशाय वद्वैर्व-
लविवर्द्धनम् । हितमेतत्सदा प्रोक्तं र-
सायनगुणोषिणाम् ॥ ३९ ॥

गंधक ६ मासे, कालीमिरच ४ मासे और काला अभ्रक आठवाँ भाग इन सबको एकत्र पत्थरपर पीसकर पश्चात् तिलके तेलमें तीन दिनतक भावना देकर तीन बत्ती बनावे । फिर उन बत्तियोंको घीसे सानकर दीपककी लोयसे प्रज्वलित करे और उसके नीचे

एक दूधका भरा पात्र रखदेवे । उन वस्तियोंसे जो सत्व गिरे उसको ग्रहण करलेवे । पश्चात् तीन पानों को कुचलकर उनका रस निकाललेवे । उन पानोंके दो रत्ती रसमें एक रत्ती इस उपर्युक्त गंधकके सत्व को मिलाकर प्रतिदिन प्रातःकाल क्षेत्रपालको वलि देकर सेवन करे । इसपर यथेच्छ आहार विहार करे । इसपर कुछभी परहेज नहीं है । यह उत्तमरसायन-बलां और पलितनाशक, अग्निकं बलको बढ़ानेवाला और रसायनको इच्छा करनेवाले मनुष्योंका सदैव हितकारी है ॥ ३४-३९ ॥

अथ गन्धकद्रुति ।

पलामिह गन्धकचूर्णं राजिकातः कर्षकालितमादाय । सिततरवसननिरुद्धं हविषा प्लुनशोषितं बह्वो ॥ ४० ॥ तद्ववमाज्ये मग्नं त्रिकुट्टकचूर्णैककर्षसंयुक्तम् । मिलितैकशाणमात्रं प्रातः खाद्यं नियतपर्णम् ॥ ४१ ॥ वर्णबलयुतमेतज्जनयति कुरुते देहसुखम् । सनताभ्यासवशादाति जनयति सुधाधामलावण्यम् ॥ ४२ ॥

गन्धकका चूर्ण ४ तोले और राईका चूर्ण १ तोला लेकर दोनोंको एकत्र करके उत्तम सफेद बख्खमें बांध कर और उस कपड़ेको घामे भाधना देकर सुखालेवे फिर बर्त्ता बनाकर अग्निके द्वारा उन वस्तियोंको प्रखलित करे और उनसे जो स्नेह अर्थात् द्रवपदार्थ गिरे उसको एकपात्रमें ग्रहण करलेवे । फिर उस स्नेहको एक तोला त्रिकुट्टके चूर्णमें मिलावे । फिर प्रतिदिन इस औषधको चार मासे सेवन करे । इसको सदैव सेवन करनेसे शरीरमें वर्ण, बल, सुख और लावण्यता उत्पन्न होती है ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

अथ गन्धकयोग ।

यो गन्धाश्म सुचूर्णितं पिबति ना तेलेन कर्षोन्मितमभ्यङ्गोष्णजलावसेचनरतः पेयामृतं प्रत्यहम् । सप्ताहान्नियतं निहन्ति सकलां पामादिसर्वा रुजं नित्याभ्यासवशाद्दिनष्टसकलक्लेशोपतापः पुमान् ॥ ४३ ॥

जो मनुष्य प्रतिदिन एक तोला गन्धकका चूर्ण तेलके साथ पान करता है तथा शरीरपर तैलादिकी मालिश करके नित्य गरमजलसे स्नान करता है और प्रतिदिन दूध घृतादिक अथवा अमृतादि पेया किम्वा स्वादु द्रव्योंकी पेया पान करता है, उसके सात-दिनमें सर्वप्रकारके वातादिक रोग नष्ट होजाते हैं । इसका नित्य सेवन करनेके अभ्याससे समस्त क्लेशादि और उपताप दूर होजाते हैं ॥ ४३ ॥

अथ गन्धककल्प ।

यो वात्युग्रमतिः सुचूर्णितमिदं गन्धाश्म कृष्णासमं पथ्या तुल्यमथापि पूजितगुरुभूतेशपूजारतः ॥ आहारादियु यन्त्रणाविरहितः स्यात्पुष्टिशौर्यान्वितः प्रोत्फुल्लाम्बुजनेत्र एवमजरश्रामीकराभाश्रयः ॥ ४४ ॥

जो तीक्ष्णबुद्धिमनुष्य गंधक, पांफल और हरडुंडुन तीनोंको समान भाग लेकर चूर्ण करके उस चूर्णको प्रथम गुरु महादेवकी पूजा करके सेवन करता है, वह मनुष्य अहारादिकके पचनेकी यंत्रणासे रहित होकर पुष्टि और शूरतादिको प्राप्त होता है । तथा विकसित कमलकेसे नेत्रोंवाला, जरारहित और सुवर्णकी कांतिके समान सुन्दर शरीरवाला होजाता है ॥ ४४ ॥

गन्धकरसपर्पटी ।

धृङ्गराजरसेनैव लोहपात्रेऽग्निना पचेत् । द्रावयित्वा विनिक्षिप्य मायूर इव जायते ॥ ४५ ॥ जयादलरसेनापि वर्द्धमानरसेन च । शृङ्गवेररसेनापि काकमाच्या रसेन वा ॥ ४६ ॥ रसगन्धद्वयं लब्धं लोहपात्रे प्रियोत्तमम् । एकीकृतं च तावच्च खल्वयेदपि यत्नतः ॥ ४७ ॥ यावच्च नीलवर्णं स्यात् कोलाङ्गारैश्च पाचयेत् । गोमयस्यालवालेन स्थापिते कदलीदले ॥ ४८ ॥ ढालयेत्पाकवित्प्राज्ञस्ततस्तु प्राशयेन्नरः । एवं सति सुखार्थाय पथ्यभुग्भिः प्रसेव्यते ॥ ४९ ॥

गन्धकपर्पटी चैषा सिद्धा कालस्य
सिद्धिदा । दुर्नामग्रहणीमामशूलश्च
ग्रहणीगदम् ॥५०॥ कामलां पांडुरोगश्च
प्लीहगुल्मजलोदरम् । भस्मकं चाम-
वातश्च कुष्ठानि च ध्रुवं जयेत् ॥ ५१ ॥
एवमादीनि जित्वैव वपुषा निर्मलः
सुखी । जीवेद्वर्षशतं पूर्णं वलीपलि-
तवर्जितः ॥ सर्वव्याधिचिकित्सायां
कल्कोऽयमिति दुर्लभः ॥ ५२ ॥

गंधकको प्रथम भागरेके रसके साथ लोहेके पात्रमें
अग्निसे पकावे । जब वह गलजाय तब उसको उतार
कर जयंतीके पत्तोंके रसमें, अंडके रसमें, अदरखके
रसमें और मक्रोयकं रसमें क्रमसे डाल डालकर
घुमावे । इस प्रकार शुद्ध कियाहुआ गंधक और शुद्ध
पारा लेकर दोनोंको एकत्र करके उत्तम लोहेके खर-
लमें तबतक अच्छे प्रकारसे खरल करे जबतक कि
नीले रंगकी कजली न होजाय । फिर उसको बेरीके
अंगारोंसे पकावे । और गोबरका आलवाल (थामला
बनाकर उसपर केलेका पत्ता रखकर उस पत्तेके ऊपर
इसको डालदेवे । इस प्रकार उस रस पर्पटीके सिद्ध
होजानेपर सुख प्राप्तिकी इच्छा करनेवाले और
पथ्यसे रहनेवाले मनुष्योंको इसका सेवन करना
चाहिये । यह गन्धक पर्पटी-तत्काल सिद्धि देनेवाली
है । तथा बवासीर, संग्रहणी, आमशूल, ग्रहणी,
कामला, पांडुरोग, प्लीहा, गुल्म, जलोदर, भस्मक,
आमवात और सर्वप्रकारके कुष्ठोंको नष्ट करती है ।
तथा शरीरको आरोग्य और सुखी करती है । इसको
सेवन करनेवाला मनुष्य वली और पलितरोगसे
रहित होकर पूरे सौ वर्षतक जीता रहता है । सर्व-
प्रकारके रोगोंकी चिकित्सामें यह कल्प अत्यन्त
दुर्लभ है ॥ ४५-५२ ॥

ताम्ररसायन ।

तनुपत्रकृतं ताम्रं नैपालं गन्धकं स-
मम् । दत्त्वा चोर्ध्वमधो मध्ये स्था-
लिकामध्यसंस्थितम् ॥ ५३ ॥ कृत्वा
स्वल्पपिधानश्च स्थालीमध्ये निधा-
य च । शर्कराभक्तलेपेन लिप्ताः स-
न्धीस्तदूर्ध्वतः ॥ ५४ ॥ बालुकापू-

रिता स्थाली विहितायां पुनस्त
था । सुलिप्तायाश्च यामैकमधोर्ध्वो-
लां प्रदापयेत् ॥ ५५ ॥ तत आकृ-
ष्टताम्रस्य मृतस्य त्विह योजना ॥ ५६ ॥
अथ कर्ष गन्धकस्य वह्निस्थं लोह-
पात्रगम् । शिलावट्टेन संमर्द्य द्रुतं
वृष्टं पुनः पुनः ॥ ५७ ॥ रसोऽम्ल-
मथितः शुद्धस्तावन्मानः प्रदीयते ।
ततस्तथैव संमर्द्य पुनराज्यं प्रदापये-
त् ॥ ५८ ॥ अष्टविन्दुकमानश्च मर्द-
येन्मूर्च्छितं तथा । सर्वं स्यात्तत
आकृष्य शिलावट्टादिकं दृढम् ॥
॥ ५९ ॥ संहत्यालंबुषारसप्रसृतेन
विलोडितम् । पुनस्तथैव वह्निस्थे
लोहपात्रे विमर्दयेत् ॥ ६० ॥
यावद्रसक्षयः पश्चादाकृष्टं संप्रयोज-
येत् । अलम्बुषारसेनैव गोलकं सं-
प्रकल्पयेत् ॥ ६१ ॥ तं पिण्डवस्त्रं नि-
ष्पीड्य पिंडे त्रिकुटजे पुनः । वसनां-
तरितं दत्त्वा पोटलीं कारयेत्सुधीः ॥
॥ ६२ ॥ ततस्तां पोटलीमाज्ये मग्नां
कृत्वा विधारिताम् । सूत्रेण दण्डसं-
लग्नां पाचयेत्कुशलो भिषक् ॥ ६३ ॥
यदा निष्फेनता चाज्ये गुटिका च
दृढा भवेत् । तदा पक्वं तमाकृष्य प-
श्चगुजातुला घृतम् ॥ ६४ ॥ त्रिकुटु-
त्रिफलाचूर्णं तुल्यं प्रातः प्रयोजयेत् ।
तत्रं स्यादनुपाने तु ह्यम्लपित्तोच्छ्रये
पुनः ॥ ६५ ॥ त्रिफलैव समा देया
कोष्णं वारि पिबेद्दत्तु । सप्तमे दिवसे
रक्ती वृद्धिस्ताम्रात्तु माषकम् ॥ ६६ ॥
यावत्प्रयोगस्तथैव ह्यपकर्षं पुनर्भवेत् ।
योगोऽयं ग्रहणीयक्ष्मपक्तिशूलाम्ल-
पित्तहा ॥ ६७ ॥ रसायनं समुद्दिष्टं
शुद्धकीलादिनाशनम् । न चात्र परि-

हारः स्याद्विहाराहारकर्मसु । ताम्रं
रसायनमिदं सर्वव्याधिहरं परम् ॥
घृतमधुशर्करया हितं लेहवन्मर्दनी-
यम् ॥ ६८ ॥

नेपालदेशका ताँवा लेकर उसके बारीक पत्रे
करलेवे और उसके समान भाग शुद्ध गन्धक लेकर
उसका चूर्ण करलेवे । फिर एक हाँडी लेकर उसमें
आधा गन्धकका चूर्ण बिछाकर उसके ऊपर उपर्युक्त
ताँबेके पत्रोंको रखे और उनके ऊपर शेष गन्धकका
चूर्ण डालदेवे । फिर उस हाँडीके ऊपर स्वल्पपिधान
अर्थात् छोटा ढक्कन ढकदेवे और उसके ऊपरके
जोड़ोंको खाँड और भातके द्वारा लेपकरके बन्द कर-
देवे । फिर एक दूसरी हाँडी और लेकर उसमें बालु
भरकर उसमें पूर्वाक्त हाँडीको रखकरके, दोनों हाँडि
योको एकत्र जोड़कर उनकी संधियोंको अच्छेप्रकार
कपरमिट्टी आदिसे बन्द करके उसके नीचे एक
प्रहरतक अग्निदेवे । पश्चात् ताँबेकी भस्मको निका-
लकर उसमें एक तोलाभर गन्धक मिलाकर अग्नि-
पर रखे हुए लोहेके पात्रमें डालदेवे । जब वह
गल जाय तब तत्काल निकालकर शिलापर पीस-
लेवं । इस प्रकार बारंबार शिलापर पीस पीसकर
अग्निपर पकावे । फिर बराबरके अम्लरसमें मर्दन
करके शुद्ध करे । पश्चात् आठ विंदुप्रमाण घृतले
मूर्च्छित कर मर्दन करे । पीछे इसको लेकर आठ
तोले लज्जावंतीके रसमें शिलवट्टा आदिसे अच्छेप्रकार
पीसकर फिर लोहेके पात्रमें करके अग्निपर स्थापन
करे । जब उसका रस जलजाय तब उसको पीस-
कर लज्जावंतीके रसके द्वारा गोला बनावे । तत्प-
श्चात् उस गोलेको बखमें रखकर दबावे और फिर
उसमेंसे गोलेको निकालकर उसमें त्रिकुटेका चूर्ण
मिलाकर एक कपडेमें रखकर उस कपडेकी पोटली
बनावे । फिर उस पोटलीको घृतमें भिजाकर सूत
डंडेपर बाँधकर घृतपात्रमें लटकाकर अग्निसे पकावे ।
जब घृत क्षागरहित होजाय तब वह पिंड दृढ हो
जाता है । फिर उसको निकालकर उसमेंसे पांच २
रत्तीभर लेकर बराबरकी घृत और त्रिकुटेका चूर्ण
तथा त्रिफलेका चूर्ण मिलाकर प्रातःकाल सेवन करे ।
और अम्लपित्तरोगमें इस औषधके ऊपर तक्रका
अनुपान करे अथवा त्रिफला समानभाग लेकर चूर्ण
करके संदोष्ण जलके साथ सेवन करे । सातवें दिनसे

क्रमक्रमसे एक एक रत्ती मात्रा बढ़ाता जाय और
जब एक मासे पर्यंत होजाय तब फिर उसी क्रमसे
घटाता जाय । यह उत्तमरसायन-संग्रहणी, राज-
यक्ष्मा, परिणामशूल, अम्लपित्त और बवासीर आदि
रोगोंको नष्ट करता है इसपर आहार और विहारको
कुछ परहेज नहीं है यह ताम्ररसायन सम्पूर्ण रोगोंको
नष्ट करता है । इसको घी, मिश्री और शहदमें मिला-
कर सेवन करना उचित है ॥ ५३-६८ ॥

द्वितीय ताम्ररसायन ।

कण्टकवेधनयोग्यं ताम्रस्य पत्रं कृतं
समादाय । कर्षाधिकपलमात्रं भस्मा-
शौ निर्देहेद्विषक्कुशलः ॥ ६९ ॥ एवं
पुनरपि वारद्वितयं विमर्द्यमतिगा-
ढम् । प्रत्येकं मिलितेष्वपि तथैव वा-
रत्रयं दद्यात् ॥ ७० ॥ इन्द्रस्वरसंभा-
वितगन्धकलिप्तन्तु ताम्रकं कृत्वा ।
खर्परसंपुटमध्ये विनिधाय मृदा त-
मुपालिम्पेत् ॥ ७१ ॥ हस्तप्रमाणवदने
गते चतुर्हस्तपरिमाणे । दत्त्वेन्धनं क-
रीषन्तुषमध्ये दहनमादाय ॥ ७२ ॥
तदुपरि दत्त्वा ताम्रसंपुटं निहितं पु-
नश्च करीषाभिः । संछाद्य तत्र वह्निं
प्रञ्चालयेद्विषग्विशंकः ॥ ७३ ॥ तावत्
पुटं प्रदेयं यावत्ताम्रश्च मृत्युमायाति ।
मृतमधिगम्य च भांडे क्वचिदपि तत्
स्थापयेत् पुटितम् ॥ ७४ ॥ तदनु
तावत्प्रमाणपारदमादाय खल्वयेन्नि-
पुणः । खल्वशिलाद्यां मध्ये गृहधूम-
निशेष्टकाचूर्णैः ॥ ७५ ॥ पश्चाद्धारि-
विधानं पुनश्च त्रिकटुना खल्वयेन्नि-
पुणः । खल्वितसूतस्यैवं पातयंत्रेण
चोद्धारः ॥ ७६ ॥ समकृतगन्धकस-
हितं पुनरपि कृत्वा खल्वयेन्निदिनम् ।
एवं तन्मृतसूतकमृतताम्रकमिश्रितं
कुर्यात् ॥ ७७ ॥ दुग्धपलाष्ठकमाज्यं
तत्समश्च नारिकेलजलम् । द्विपलं

कलितत्रिफलकाथञ्च चतुर्गुणं दद्यात्
 ॥ ७८ ॥ मुहृढे ताम्रकटाहे मार्त्ते वा
 स्थापयेद्विविधविधिज्ञः । दर्व्या च
 ताम्रमय्याऽऽयस्या चाल्पं पुनः पचे-
 द्वैद्यः ॥ ७९ ॥ ज्ञात्वा पाकं भूयो झ-
 टिति कडाहमवतारयेन्निपुणः । तद-
 तु च तस्मिन्नष्टलक्षणांश्च विश्राम्य
 क्रियतेऽपि ॥ ८० ॥ त्रिकटुत्रिफलालो-
 हितचित्रकविडङ्गकभद्रमुस्तानाम् ।
 जरिकयोः प्रत्येकं कर्षकलितचूर्ण-
 निक्षेपः ॥ ८१ ॥ पुनरेलाकङ्गो-
 ललवङ्गजातिफलजातिकोषाणाम् ।
 चूर्णं गुडत्वचोऽपि माषाष्टपरिमितं
 दद्यात् ॥ ८२ ॥ ततः सुशीतं ताम्रं
 माषाष्टकमति विकीर्य घनसारम् ।
 ताम्रमयादिनि भाण्डे स्निग्धे मार्त्ते
 ह्यवस्थाप्यम् ॥ ८३ ॥ मनसि च वि-
 धाय सूर्यपूजां कृत्वा शुभे दिने
 चर्षे । आदाय मापमेकं दधि मधुना
 सह भक्षयेत्सुचिरम् ॥ ८४ ॥ तदनु
 च कण्ठप्रायः क्षीरं कार्यमनुपान-
 मधिकाल्पम् । नक्तमनल्पं पुनरपि
 तांबूलं भक्षयेत्सरुजः ॥ ८५ ॥ र-
 क्तीद्वयमथ त्रितयं पञ्चकं वृद्धेर्माषकं
 यावत् । स्थितमतश्चोपरिष्ठात्प्रति-
 लोमं ह्रासयेत्तदनु ॥ ८६ ॥ खादित-
 मेतन्नियतं यस्य न ताम्रं प्रवर्त्तते प्रा-
 यः ॥ तत्रापि सयवक्षारस्त्रिफलाका-
 थोऽत्र पानीयः ॥ ८७ ॥ प्रारब्धे
 ऽस्मिंस्ताम्रे कतिचिद्विषसात्र भक्षये-
 न्मत्स्यान् । क्रोधञ्च दिवा निद्रां
 वेगनिरोधास्त्यजेद्वैरम् ॥ ८८ ॥
 शाकं चाम्लं वर्ज्यं दधि बहिरम्लं
 क्षयेदेव । जह्यात्तिककषायं जह्या

तात्कालिकीं पुष्टिम् ॥ ८९ ॥ वृष्यं
 मधुरं शीतलमथ शाल्यन्नं मधुघृत-
 मशनीयात् । महुररोहितशकुलशर्श-
 मृगेणादिकं मांसम् ॥ ९० ॥ खाद-
 नेतद्वेषजमजीर्णं च न भवति न जा-
 नाति । जयति च कफमतिगाढं का-
 सं श्वासं च निवारयति ॥ ९१ ॥
 विरचितमेतत्ताम्रं धर्म्माध्यक्षेण ध-
 र्मपालेन । वन्ध्यावटी यः पिण्ड-
 त इडानिवन्धचर्यादिः ॥ ९२ ॥

बुद्धिमान् वैद्य कंटकवेधी तांबेके पत्रोको पांच
 पल लेकर प्रथम भस्मक अग्निमे दहन करे । फिर
 निकाल कर मर्दन करके इसीप्रकार दूसरीवार
 अग्निमे फूँके और खरल करे । फिर तीसरीवार
 अग्निमे तपावे और खूब मर्दन करे । पश्चात्
 इन्द्रजैके काथमे अथवा कुडेकी छालके रसमें
 गंधककी भावना देकर उसका तांबेके पत्तोंपर
 लेप करदेवे । फिर उन पत्रोंको शराव सम्पुटमें
 रखकर ऊपरसे कपरमिट्टी करके सुखावे । पश्चात्
 वैद्य एक हाथ चौड़ा और चार हाथ गहरा गड्ढा
 खोदकर उस गड्ढेमें प्रथम भुस बिछाकर उसके
 ऊपर आरने उपले रखे, फिर उनके ऊपर ताम्रसम्पु-
 टको रखकर और उसको आरने उपलोसे ढककर
 निःशंक होकर अग्नि लगादेवे । इस प्रकार तब-
 तक पुट देवे जबतक तांबेकी अच्छे प्रकारसे भस्म
 न होजाय । पश्चात् उसमेसे भस्मको निकालकर
 मिट्टीके पात्रमें रखदेवे । फिर उस तांबेकी भस्मकी
 बराबर पारा लेकर उसमे घरका धुआँसा, हलदी
 और ईटका चूर्ण मिलाकर उसको उत्तम खरलमे
 डालकर पारेको खरल करे । पश्चात् त्रिकुटेके काथ
 के द्वारा उसको मर्दन करे । इस प्रकार खरल किये
 हुये पारेको पातनयंत्रमें पतन करे । फिर इसमें बुरा-
 वरका गन्धक मिलाकर तीन दिनतक खरल करे ।
 इसप्रकार मारण किये हुए पारेको उपयुक्त तांबेमे
 मिलाकर दोनोंको एकत्र खरल करे । तदनन्तर इसको
 आठपल दूध, आठ पल घृत, आठ तोले नारियलका
 जल और आठ तोले त्रिफलेका काथ इन सबके

साथ एकत्रित करके उत्तम द्रव तैलके पात्रमें अथवा मिट्टीके पात्रमें डालकर धीरे २ अंगुल पकावे और ताँबेकी अथवा लोहेकी करलीमें चलाता जावे । जब समझले कि पाक अच्छे प्रकारसे तैयार होगया है और जलने लगा है तब तत्काल उतार लेवे । फिर अच्छे प्रकारसे शीतल होजानेपर उसमें त्रिकुटा, त्रिफला, लालचदन, चीता, वायविडंग, नागरमोधा, जीरा और कालाजीरा इन प्रत्येकका चूर्ण एक एक तोला परिमाण तथा इलायची, कंकाल, लौंग जायफल, जावित्री और दालचीनी इन प्रत्येकका चूर्ण आठ आठ मासे और शुद्ध कपूर आठ मासे उत्तम प्रकारसे मिलादेवे । पश्चात् उसको ताँबेके पात्रमें अथवा लोहेके पात्रमें किम्बा मिट्टीके चिकने पात्रमें भरकर रखदेवे । फिर मनसे सूर्यदेवकी पूजा करके शुभ दिन और शुभ नक्षत्रमें एक मासा यह औषध लेकर दही और शहदके साथ खाय और ऊपरसे थोडा बहुत दूधका अनुपान करे रोगी रात्रिमें इसके ऊपर ताम्बूल अधिक खाय, प्रतिदिन दो रत्ती, तीन रत्ती, पांच रत्ती, इस क्रमसे बढ़ाकर खाय और जब मासे पर्यन्त होजाय तब विपरीत क्रमसे घटाता जाय । नियमित रूपसे सेवन किया ताम्र जिसके शरीरमें प्रवृत्त हो उसको जवाखारका चूर्ण डालकर काथके साथ पान करना चाहिये । इस ताम्रको सेवन करना प्रारम्भ करनेपर कुछ दिनोत्तर मछली नहीं खाय, तथा क्रोध, दिनमें सोना, मलमूत्रके वेगको रोकना, द्वेष, शाक, खटाई, दही और काजी आदि समस्त अम्ल पदार्थोंको त्याग देवे। तथा तिक्त और कषायपदार्थ रमवाले और तत्काल पुष्टिकरनेवाले पदार्थोंको भी भक्षण न करे । इसपर वृष्य (वीर्यवर्द्धक), मधुर, शीतल, शालि चावल-लोका भात, शहद, घृत, एव मद्गुर, रोहित, शकुल मछली, शशक और एणादिक हिरणका मांस, इन सबको सेवन करे । इस औषधिके सेवन करनेपर अजीर्ण नहीं होता । तथा अत्यत बढाहुआ कफ नष्ट होता है । खौसी और श्वास दूर होता है । यह उत्तम ताम्ररसायन धर्माध्यक्ष धर्मपालने निर्माण किया है । इन्होंने बन्धावटी और इडानिवन्धचर्यादिक ग्रंथ भी निर्माण किये हैं ॥ ६९-९२ ॥

पञ्चामृतरस ।

जातीफलं जानिपत्रं लवङ्गं कमरं तथा । चातुर्जतिकशुण्ठी च पिप्पली-
त्र्यूपणानि च ॥ ९३ ॥ चित्रकं पि-
प्पलीमूलं वरीमूलन्तु वंशजम् । सर्वं
पिप्पलीमुसुक्ष्मश्च वाससा परिशोध-
येत् ॥ ९४ ॥ लोहचूर्णं तथाभ्रश्च
ताम्रभस्म च बद्धकम् । रसराजश्च
नागश्च कल्कस्यार्द्धं प्रयोजयेत् ॥ ९५ ॥
नागवल्लीरसेनैव ह्यथवा माक्षिकेण
च । गुटिका तत्र संकार्या माषद्व-
यप्रमाणिका ॥ ९६ ॥ पट्टसांश्राव-
भेदांश्च यथोक्तं भक्षयेद्बुधः । गोदु-
ग्धस्यानुपानश्च ह्युष्णं चैव विशेषतः
॥ ९७ ॥ वर्द्धनं सप्तधातूनां वीर्य-
बुद्धिवलप्रदम् । बल्लभाकान्तिरुचि-
रमग्नेः संदीप्तिकारकम् ॥ ९८ ॥ क-
फरोगहरश्चैवं बुद्धिज्ञानस्य कारण-
म् । बन्ध्या च लभते गर्भं षण्ढोऽपि
पुरुषायते ॥ ९९ ॥ नपुंसको याति
पुंस्त्वं रामाः कामायते शतम् ।
वज्रकायः शुचिर्धातुर्दिव्यदृष्टिस्तु
जायते ॥ जराव्याधिविनिर्मुक्तो व-
र्षसेवी यदा भवेत् ॥ १०० ॥

जायफल, जावित्री, लौंग, केशर, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, सोंठ, पीपल, त्रिकुटा, चीता, पीपलामूल, शतावर और वंशलोचन इन सबको समान भाग लेकर बारीक पीसकर बख्रमें छानलेवे । फिर लोहेका चूर्ण, अभ्रकभस्म, ताम्रभस्म, वंगभस्म, पारदभस्म, चन्द्रोदय और सीसेकी भस्म इन सबका कल्क बनाकर उसको समस्तचूर्णसे आधा भाग लेवे और उपर्युक्त चूर्णमें मिलाकर नागरवेलके पानके रस अथवा शहदमें खरलकरके दो दो मासेकी गोलियाँ बना लेवे । इन गोलियोंको पट्टसोंके

अनुपानभेदसे यथारोगानुसारं सेवन करे । इसको गायक उष्णदूधके साथ सेवन करनेसे साता धातुओंकी वृद्धि, तथा चाय्ये, बल और बुद्धिको वृद्धि होती है । स्त्रियाके शरीरकी कांति बढ़ती है, रुचि उत्पन्न होती है । और अग्निदीपन होता है । सर्वप्रकारके कफरोग नष्ट होते हैं । बुद्धि तथा ज्ञान प्रकट होता है । वध्याओं भो गभेको धारण करती है, नपुंसक पुरुष भो पुरुषताको प्राप्त होता है और सो स्त्रियोंकी इच्छा करता है । इसको एक वर्षपर्यंत सेवन करनेसे वज्रके समान शरीर, शुद्ध धातु, दिव्यदृष्टि होती है और जराव्याधेसे विमुक्त होकर आरोग्यताको प्राप्त करके मनुष्य बहुकालपर्यंत जीता रहता है ॥ ९३-१०० ॥

ताम्रक ।

गन्धकस्य पलं प्रोक्तं रसस्य द्विपलं तथा । नैपालस्य विशुद्धस्य ताम्रस्य च पलं भवेत् ॥ १०१ ॥ ततो गन्धाद्ध्वचूर्णेन ताम्रं संयुज्य चूर्णयेत् । शेषार्द्धगन्धकं कृत्वा पारदं खल्लयेद्विषक् ॥ १०२ ॥ रसेन हस्तशुण्ड्याश्च लोहपात्रे पचेच्छनैः । कृत्वा पङ्कमं पाकं ताम्रेण सह योजयेत् ॥ १०३ ॥ तच्च गन्धकचूर्णेन संवेष्ट्य हविषा सह । पाचयीत भिषकप्राज्ञः पाकविन्मृदुवह्निना ॥ १०४ ॥ आलोड्य मधुसर्पिर्भ्यां भुक्त्वा तक्रं पिबेदनु । अग्निमाद्यमजीर्णञ्च ग्रहणीपांडुकामलाम् । परिमाणमरुजं चाशु नाशयेत्तु प्रयोजितम् ॥ १०५ ॥

शुद्ध गवक ४ तोले, शुद्ध पारा ८ तोले और शुद्ध नैपाल देशीय तांबा ४ तोले लेवे । प्रथम गधकके आवे चूर्णको तांबेके साथ मिलाकर पीसलेवे और वार्फाके आवे गधकको पारेमें मिलाकर खरल करे । फिर इस कजलीको हाथीशुडाके रमके साथ लोहेके पात्रमें धीरे धीरे पकावे । जब यह पाक पकते पकते

कोचके समान होजाय तब इसमें तांबेका चूर्ण मिला देवे । फिर गधकके चूर्णसे इसको वेष्टित करके अर्थात् लपेटकर घोंके साथ धीरे धीरे मन्द, मन्द अग्निसे पकावे । फिर इसका घों और शहदमें मिलाकर सेवन करे और ऊपरसे तक्रका अनुपान करे । यह रसायन--मंदाग्नि, अजीर्ण, सप्रहणी, पांडुरोग, कामला और पारेणामगूलको नष्ट करता है ॥ १०१ ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ १०५ ॥

द्वितीयताम्रक ।

जीर्ण ताम्ररसं चैव गन्धकञ्च सुचूर्णितम् । स्वर्णमाक्षिकमादाय धनूरकरसे पचेत् ॥ १०६ ॥ यावत्पाकं तथा कृत्वा शास्त्रविन्मन्दवाह्निना । त्रिफलापिण्डिकावेष्ट्य विधिवत्सर्पिषा पचेत् ॥ १०७ ॥ ज्ञात्वा पाकं समुत्तार्य शीते निष्कास्य भक्षयेत् । विमर्द्य मधुसर्पिर्भ्यां नारिकेलं पिबेदनु ॥ १०८ ॥ पाण्डुरोगञ्च कासञ्च ज्वरांश्च विषमांस्तथा । गुल्मं प्लीहामयञ्चैव विनाशयति भक्षणात् ॥ १०९ ॥

पुराना तांबा, शुद्ध पारा, शुद्ध गधक और सोनामाखी इन सब औषधियोंको समान भाग लेकर एकत्र चूर्ण करके धतूरेके रसमें मन्द मन्द अग्निसे पकावे जब ये पकते पकते पिण्डकी समान होजाय तब त्रिफलेके चूर्णमें मिला पिण्डी वनाले विधिपूर्वक घृतमें पकावे और उत्तम प्रकारसे पकनेपर उतार लेवे । जब शीतल होजाय तब इसमेंसे निकालकर शहद और घोंमें मिलाकर सेवन करे और ऊपरसे नारियलका जल पान करे । इसको भक्षण करनेसे पांडुरोग, खांसी, विषमज्वर, गुल्म और प्लीहारोग नष्ट होता है ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ १०९ ॥

ताम्रामृताख्यरसायन ।

गन्धकं जीर्णताम्रञ्च सूतकञ्च समांशकम् । तण्डुलियकमूलस्य रसेऽपिलवणस्य च ॥ ११० ॥ लोहपात्रे पचेत्तावद्यावत्तद्गुलिकायते । वस्त्रे तत्पो-

टलीं बद्धा वेष्टयेत्तां सुपिष्टया ॥१११॥
 आमलक्या ततः पक्त्वा सर्पिषा मृदु-
 वह्निना । शर्करामधुसर्पिर्भ्यामालो-
 ड्य विधिवल्लिहेत् ॥ ११२ ॥ नारि-
 केलपयः पेयं तक्रं चानु यथाविधि ।
 आचरेद्ब्रह्मचर्यन्तु हितार्थं वैद्यवत्स-
 लः ॥ ११३ ॥ दुर्नामप्लीहपांडुत्वज्व-
 रकासादिकान्गदान् । अग्निमान्द्यकृ-
 तान्सर्वान्निहन्यात्क्षिप्रमेव तु ॥११४॥

शुद्ध गंधक, पुराना तांबा और शुद्धपारा इन तीनों औषधियोंको समान भाग लेकर वारोक पीसकर चौलाईकी जडके रसमें और सेवेनमकके जलमे लोहेके पात्रमे धारे २ मंद मंद अग्निसे पकावे । जब ये पकते पकते गोलके समान होजाय तब वस्त्रकी पोटलीमें बांधकर उसको आमलोंकी पिठ्ठासे वेष्टित करके घृतके द्वारा मंद मंद अग्निसे पकावे । जब वह शीतल होजाय तब मिश्री और शहदमें यथाविधि मिलाकर इसको अपनी शक्तिके अनुसार चाटे और ऊपरसे नारियलका जल अथवा तक्रका अनुपान करे । इसको सेवन करनेपर अपने हिसके लिये मनुष्य ब्रह्मचर्यको धारण करके रहे और वैद्यकी आज्ञानुसार चले । यह ताम्ररसायन—बवासीर, प्लीहा, पांडुरोग, ज्वर, खांसी और मंदाग्निप्रभृति समस्त रोगोंको शीघ्र नष्ट करती है ॥ ११०-११४ ॥

पर्पटाख्यरसायन ।

रसगन्धकताम्राणां चूर्णं कृत्वा समां-
 शकम् । पुटपाकविधौ पक्त्वा मधुना-
 लोड्य संलिहेत् । सर्वरोगहरश्चैतत्प-
 पर्पटाख्यं रसायनम् ॥ ११५ ॥

शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक और तांबा इन सबको समान भाग लेकर एकत्र खरल करके पुटपाककी विधिसे पकाकर और शहदमे मिलाकर सेवन करे तो यह पर्पटाख्य रसायन सर्वप्रकारके रोगोंको नष्ट करती है ॥ ११५ ॥

गन्धकं त्रिफला भृङ्गी समभागन्तु
 कारयेत् । भक्षयेत्कर्पमात्रन्तु वर्षान्मृ-
 त्युजरापहः ॥ ११६ ॥

शुद्ध गंधक, त्रिफला और भांगरा इनको समान भाग लेकर चूर्ण करलेवे । फिर उसमेंसे प्रतिदिन एक तोला परिमाण सेवन करे । इसको एक वर्षतक सेवन करनेसे जरा और मृत्यु दूर होती है ॥ ११६ ॥

गन्धकरसायन ।

शुद्धगन्धपलान्यष्टौमृततीक्ष्णपलद्व-
 यम् । सूर्यपाके त्रिसप्ताहं कृत्वा क-
 न्याद्रवं पचेत् ॥ ११७ ॥ कर्षकं पात-
 येत्क्षीरे वर्षमेकं निरन्तरम् । दिव्य-
 दृष्टिर्भवेन्मर्त्या जीवेदाचन्द्रतारकम्
 ॥ ११८ ॥ मन्त्रमत्र प्रवक्ष्यामि गन्ध-
 राजस्य भक्षणे ॥ ११९ ॥

शुद्ध गन्धक ३२ तोले और लोहेकी भस्म ८ तोले दोनोंको एकत्र घीकारके रसमे तीन सप्ताहपर्यंत सूर्यपाककी विधि (सूर्यकी तीक्ष्ण धूप) से पकावे । फिर इसमेंसे प्रतिदिन एक तोला पर्यंत लेकर दूधमें डालकर निरन्तर एकवर्षतक सेवन करे । इसके प्रभावसे मनुष्य दिव्यदृष्टि होकर जबतक चन्द्रमा सूर्य और तारे है तबतक जीता रहता है । और इस गन्धराजके भक्षण करनेके मन्त्रको कहता हूँ ११७-११९

“ॐ हः अमृतीय अमृतशक्तिय अ-
 मृतगंधोपजीवनिष्पन्नचन्द्रामृतं आ-
 ज्ञापनममृतत्वं कुरु स्वाहा” ।

“ॐ हः अमृतीय अमृतशक्तिय अमृतगन्धोपजीव-
 निष्पन्नचन्द्रामृतम् । आज्ञापनममृतत्वं कुरु स्वाहा”
 इति मन्त्रः ।

कुर्याद्गंधकयोगानां क्षीरशाल्यन्न-
 भोजनम् । केवलं वा पिबेत्क्षीरमन्य-
 त्सर्वं विवर्जयेत् ॥ १२० ॥

सर्वप्रकारके गन्धकयोगोंपर दूध और शालि चावलोका भात भोजन करे । अथवा अन्य समस्त पदार्थोंको छोड़कर केवल दूधको पान करे ॥ १२० ॥

अभ्रककल्प ।

अतिकृष्णमतिस्त्रिधं वज्रमञ्जनसन्नि-
भम् । सर्वदोषपरित्यक्तं विशेषोपल-
वर्जितम् ॥ १२१ ॥ गिरिदोषोच्छ्रि-
तं शुद्धं प्रयुञ्ज्यात्सर्वकर्मसु । विहि-
तं मत्तके नित्यं रसं रासायनादिषु
॥ १२२ ॥ एतद्वज्राख्यमाख्यातं सर्व-
देवनमस्कृतम् । सर्वव्याधिहरं नून-
मजरामरकारकम् ॥ १२३ ॥ तद्व-
त्तेनैव पञ्चत्वं कृत्वा च सुविचक्षणः ।
कृत्वाथ मृण्मये भाण्डे दृढे संस्थाप्य
बुद्धिमान् ॥ १२४ ॥ यथोक्तं मेघना-
दस्य निर्य्यासे याति संप्लुतम् । स्था-
पयेदिवसं पञ्च चतुष्टयमथापि वा ॥
॥ १२५ ॥ स्थापयेद्रससंच्छन्नं छायाया
दिव्यमौषधम् । सतीक्ष्णमसृणायाञ्च
शिलायां पेषयेत्ततः ॥ १२६ ॥ पिष्ट्वा
तथैव संस्थाप्य संस्थानोपरिसंवृतः ।
अतः पुनः पञ्चदिने पुटयेत्सदृढं तदा
॥ १२७ ॥ बलवांस्तद्रसेनैव पिष्ट्वा
संस्थापयेत्ततः । एवमादिक्रमेणैव पे-
षणं क्रियते सदा ॥ १२८ ॥ पूर्वोक्त-
क्रमयोगेन धात्रीव्योषविडङ्गकैः । सं-
मिश्रं पेषयेद्गीरो यावन्निश्चन्द्रको भ-
वेत् ॥ १२९ ॥ निश्चन्द्रिकेऽतिसंपी-
ड्य अंगुष्ठाग्रप्रमाणतः । गुटिकां का-
रयेत्सर्वां छायायाञ्चैव शोषयेत् ॥ १३० ॥
एकैकां भक्षयेत्प्राज्ञो वर्षमेकं निरन्त-
रम् । द्वितीये च पुनर्वर्षे भक्षयेद्गु-
टिकाद्वयम् ॥ १३१ ॥ एवं संवत्सरे-
णैव एकैकां वर्द्धयेद्गुटीम् । अनेनैव
विधानेन व्योम्नः शतपलं नरः १३२ ॥
अद्याद्भवेन्न सन्देहो वज्रकायो महा-
बलः । मासत्रयेण रक्ताख्यं क्षयं

कासं सुदारुणम् ॥ १३३ ॥ पञ्चकासञ्च
हृच्छूलं ग्रहण्यशोऽगदांस्तथा । आम-
वातं तथा शोथं पांडुरोगं सुदारुण-
म् ॥ १३४ ॥ मृत्युकल्पं महाव्याधिं
वातपित्तकफोद्भवम् । हन्त्यष्टादश-
कुष्ठानि यथोक्तं पथ्यसेवनात् ॥ १३५ ॥

अत्यन्त काला, अत्यन्त चिकना, अंजनके समान
और सम्पूर्ण दांपोसे रहित, विशेष कर पापाण और
पर्वतके दोपसे रहित, शुद्ध अभ्रक सर्व प्रकारके
कर्मोंमें तथा रस और रसायनकर्ममें विशेषरूपसे
प्रयोग करना चाहिए । यह वज्राख्य अभ्रक सम्पूर्ण
देवताओंके द्वारा पूजित है । यह निस्सन्देह सब
प्रकारके रोगोंको हरनेवाला तथा अजर और अमर
करनेवाला है । इसलिए ऐसे अभ्रककी उत्तमविधिसे
भस्म बनाकर उसको उत्तम और दृढ मिट्टीके पात्रमें
भरकर और यथाविधि चौलाईके रसमें प्लावित करके
चार या पांच दिनतक रक्खा रहने देवे । पश्चात्
वस्त्रमें छानकर और छायामें सुखाकर उसको सोना-
माखी और लोहेके चूर्णमें मिलाकर चिकनी और
तीक्ष्ण शिलापर पीसे और फिर वैसेही ढककर रख
देवे । पश्चात् पाचवे दिन दृढ पुट देवे । प्रथम
आमलं, त्रिकुटा और वायविडंग इनके रसोंके द्वारा
बलवान् पुरुष खूब जोरसे पेषण करे, फिर पुट देवे।
क्रमसे इसको बारम्बार पीसकर जबतक यह निश्चन्द्र
नहीं हो तबतक बराबर पुट देवे । फिर निश्चन्द्र हो-
जानेपर अंगूठेके अग्रभागसे इसको खूब मलकर
गोली बनाकर छायामें सुखालेवे । तदनन्तर एक वर्ष
तक इसकी प्रतिदिन एक एक गोली खाय और
एक वर्षके पश्चात् नित्य दो २ गोली खायें ।
इस प्रकार दो वर्ष तक दो गोली खायें । फिर
इसी क्रमसे प्रतिवर्ष एक एक गोली घटाता जाय ।
इस प्रकार इसको १०० पल सेवन करनेसे
मनुष्यका शरीर अवश्य वज्रके समान होजाता है ।
इसको तीन महीनेतक सेवन करनेसे रुधिरजनित
रोग, दारुण क्षयकी खाँसी, पाचों प्रकारकी खाँसी,
हृदयशूल, संग्रहणी, बवासीर, आमवात, शोथ
और दारुण पाण्डुरोग दूर होता है । इसपर यथोक्त
विधिसे पथ्य सेवन करनेसे मृत्युके समान महारोग

वात पित्त और कफजनित रोग और अठारह प्रकारके कुष्ठरोग नष्ट होते है ॥ १२१-१३५ ॥

महाबलविधानाश्रक ।

गगनं कज्जलसन्निभं स्निग्धमदोषं
वियोजितम् । बहुशो दूर्वालंबुषमूलै-
र्युक्तं वस्त्रे विबन्धश्च ॥ १३६ ॥ दत्त्वा
सलिलं तावत्करणे घर्षश्च पंकतां नी-
तम् । निपुणं गृहीतमुदकादञ्जनपुञ्ज-
घनीभूतम् ॥ १३७ ॥ द्वित्रिवारपरिपु-
टितं रवितरुमथिताल्पदुग्धकादिर-
से । चूर्णितमथितं शिलायां कुडव-
मेकं तदादाय ॥ १३८ ॥ प्रथमं चतु-
रष्टगुणे गोमूत्रे वा पचेन्मृदुज्वालम् ।
निपुणमनलं दत्त्वा समुद्रयात्रं तथा
दुग्धे ॥ १३९ ॥ श्लक्ष्णं विडङ्गचूर्णं ग-
गनार्थं त्रिकटुसम्भवश्च रजः । त्रिक-
टुसमं त्रिफलोत्थं पृथक्तदूर्ध्वं व-
न्ध्यायाः ॥ १४० ॥ नतकीरकणीवृ-
द्धदारुकरक्तानलनीलकानाश्च । मू-
लस्य तालमूलीरक्ताश्वमारहपुषाणा-
श्च ॥ १४१ ॥ पत्रकसवाजिगंधाशता-
वरीमूलसम्भवश्चापि । अमलिनपुनर्न-
वार्कतर्कारीसवाट्यालमूलस्य १४२ ॥
चूर्णं कण्टकपर्णीभवं समृताभृङ्गराज-
स्य । त्रिवृताख्यायास्त्रिभुवनविजय-
स्य केशराजस्य ॥ १४३ ॥ सुविदि-
तपाकं शीतं गगनचूर्णश्च भाजने स-
र्वम् । समधुसितैरनुरूपैः संमिश्रं म-
ध्वाज्यकर्षणं ॥ १४४ ॥ पिष्टं तदनु-
शिलायां स्निग्धभाण्डे निधाय सवि-
धिज्ञः । सोत्साहः सुविनीतो गृही-
याद्वाराश्रकं कल्पम् ॥ १४५ ॥ मृदुकृ-
तं वमनविरेकं वैद्यप्रदष्टेन सात्म्ययो-
गेन । याति शरीरविशुद्धिर्दीपितदे-

हानलो नीरुक् ॥ १४६ ॥ पूजितगु-
रुदेवानलातिथिसिद्धसाधुमान्यजनः।
स्निग्धोदनपरितृप्तः दीनग्लानिर-
हितः सत्कृतः ॥ १४७ ॥ स्थिर-
संकल्पो विनीतसर्वेन्द्रियः प्रशान्त-
सर्वात्मा च । परिकृतपरोपकारः वा-
सः समुज्झितो जितक्रोधः ॥ १४८ ॥
श्रद्धावानश्रीयाद्वेषजराजस्य माष-
कानष्टौ । पुण्ये दिवसे कृत्वा गुटिकां
तथा भक्षयेत्प्रातः ॥ १४९ ॥ अनुपानं
शीतजलं सततमन्नातिभोजनं ना-
त्र । हिताहिताद्यं सुखदं शाका-
म्लदधिपरिहीनश्च ॥ १५० ॥ अति-
तिक्तकटुकषायक्षाराभिष्यंदितीक्ष्ण-
रूक्षाणि । वातलविदाहिदुर्जरगुरु-
प्यसेव्यानि वस्तूनि ॥ १५१ ॥
पानं दूराध्ययनं रतिमतिशीतं
दिवा स्वप्नम् । प्रत्युपदेशं द्वेषं वाता-
तपजागरणोद्गतान् ॥ १५२ ॥
चिन्ताशोकविषादव्यायाममदकरो-
न्मादकरान् । पिशितश्चानूपदेशं
शीतपानं वर्जयेदनिशम् ॥ १५३ ॥
कृकरमयूरकलावकतिच्चिरिशशका-
जमेषसारङ्गम् । जांगलं पिशितं
श्यामं माषं पटोलश्च वार्त्ताकुम् १५४ ॥
पथ्याशी पिशितं रसं सैन्धवं सघृत-
कं सधान्याकम् । स्वास्तिकषष्टिकलो-
हितशालीनतिनिस्तुषान्मुद्गान् १५५ ॥
क्रमुकफलानि द्राक्षापकाम्फलानि
चैव शस्तानि । स्वादु च परिणति
मधुरं कलिकरश्चापि वाऽऽसवन्तो-
यम् ॥ १५६ ॥ प्रतिसप्ताहकमेतत्क्र-
माद्वा प्रवर्द्धयेद्धीमान् । युक्तिविचा-
राभिज्ञो भेषजस्य पर्यन्तं भवति ॥
॥ १५७ ॥ रसायनराजं कुर्वन् मनुजो-

मनोभिलाषं प्राप्नोति । नागार्जु-
नोपदिष्टं षण्मासोपविहितविधिना
च ॥ १५८ ॥ अपगतसकलव्याधि-
र्वलीपलितवर्जितोऽति महातेजाः ।
शूरः प्राज्ञो वाग्मी त्रिवर्गफलभाज-
नो दक्षः ॥ १५९ ॥ मदमत्तकुञ्जर-
बलः सौकुमार्योत्साहसंपन्नश्च । षो-
डशवर्षकरो बहुप्रसूतः सुचिरजी-
विनोपेतः ॥ १६० ॥ जीवेद्वर्षसहस्रं
सतताभ्यासाच्च सर्वसम्पन्नः । चन्द्र-
कमनीयकान्तिः पवनबलो धामस-
मधामा ॥ १६१ ॥ शोषयकृदति-
सारप्लीहापस्मारसिध्मयक्ष्मणः। का-
सश्वासविसर्पग्रहणी-गुल्माश्मरीशो-
थान् ॥ १६२ ॥ प्रदरजलोदर-
भस्मकवमिपामाश्लीपदभ्रमेहांश्च ।
विबन्धभगन्दरकुष्ठविषमज्वरपांडुरो
गांश्च ॥ १६३ ॥ श्रुतिवदनोदरलोच-
नमस्तकरोगान्समूत्रकृच्छ्रांश्च । आ-
शु रसायनराजः शमयति युक्त्या
प्रयुक्तस्तु ॥ १६४ ॥ सामं समीरमु-
पहन्ति कफं सपित्तं, सास्रश्च पित्तमथ
जाठरवह्निमान्द्यम् । वातप्रकोपजनि-
तान्कफजांश्च सर्वान् पित्तोद्भवांश्च नि-
खिलान्सगदांस्तथैव ॥ १६५ ॥ नागा-
र्जुनोदितरसायनसंहितायामालोच्य
चात्मनि समस्तरुजाविधाने । राजा-
नमेनमुपयुज्य रसायनानां श्रीविश्व-
रूपमुपसंस्कृतवान्कृतार्थः ॥ १६६ ॥

कज्जलके समान काला, चिकना और दोपरहित
अभ्रकलेकर सब कामोमे प्रयोग करना चाहिए। इसको
प्रथम दूध और लज्जावन्तीके जडके साथ बखकी
पोटलीमे बांधकर और जलमें भिजोकर तबतक हाथसे
रगड़े जबतक कि वह कीचडके समान न निकलने
लगे फिर उस पोटलीमेंसे निकले हुए अंजनके

समान काले अभ्रकको लेकर वैद्य उसको छायामें
सुखा लेवे । फिर भाकके दूधमे या रसमे खरल
करके दो तीन बार पुट देवे। पश्चात् इसका चूर्णकरके
अच्छे प्रकारसे शिलापर पीसे । उसमेसे एक कुडव
परिमाण चूर्ण लेकर उसको बारह गुने गोमूत्रमें
मन्द मन्द अग्निसे पकावे और उत्तम विधिसे अग्नि
देनेपर समुद्रेके जलमें तथा दूधमे बुझावे। इसके पश्चात्
उसको निकाल कर चूर्ण करलेवे फिर बारीक
पिसाहुआ वायविडंगका चूर्ण, त्रिकुटेका चूर्ण
और त्रिफलेका चूर्ण ये प्रत्येक अभ्रकसे
आधा २ भाग, तथा त्रिफलेके चूर्णसे आधा
भाग वांझककोडेकी जडका चूर्ण एवं तगर, हस्ति-
कर्णी, विधारा, लालचीता, नीलकी जड, मूली,
मुसली, लाल कनेर, हाऊबेर, तेजपात, असगन्ध,
शतावर, आमले, पुनर्नवा, आक, अरणी, खिरैटी,
कटेरी, गिलोय, भांगरा, निसोत, भांग और कुकुर
भांगरा इन सबके समान भाग चूर्णको और उक्त
अभ्रकको एक पात्रमे डालकर विविपूर्वक पकावे। जब
पाक पक कर अपने आप शीतल होजाय तब उसमे
शहद और मिश्री मिलाकर तथा एक एक कर्ष
शहद और घी मिलाकर पत्थरकी शिलापर पीसकर
त्रिकने वासनमें भरकर रख देवे । पश्चात् उत्साह-
पूर्वक और जितेन्द्रिय होकर विनीतभावसे इस श्रेष्ठ
अभ्रक कल्पको ग्रहण करना चाहिए । प्रथम वैद्यके
अनुभूत सात्म्ययोगों और मृदु औषधियोंके द्वारा
शरीरको कोमल कर वमन, विरेचनादि करे । इस
प्रकार जब शरीर शुद्ध और जठराग्नि दीपन होजाय
तब स्वस्थ मनुष्य गुरु, देवता, अग्नि, आतिथि, सिद्ध,
साधु और अन्यान्य मान्यजनोंकी पूजा करके तथा
उनको स्निग्ध भातसे तृप्त करके एव दीनता और
ग्लानिसे रहित होकर सदनुष्ठानसहित स्थिरसंकल्प
तथा विनम्रभावसे सम्पूर्ण इन्द्रियो और आत्माको
वशमे करनेवाला तथा परोपकार करनेसे क्षीण
होगया है शरीर जिसका ऐसा गृह्यतः ।। तथा क्रोध
लोभ मोहादिको जीतनेवाला और श्रद्धालु मनुष्य इस
औषधको शुभ दिनमें प्रातःसमय आठ मासे परि-
माण लेकर गोलीसी बनाकर भक्षण करे और
शीतलजलका अनुपान करे । इसपर अत्यन्त भोजन
नहीं करे। हिताहितका विचारकर सुखकर पदार्थोंको
सेवन करे । और शा, खटाई, दही, तथा अत्यन्त

कढवे, चरपरं, कपैले, क्षार, अभिग्यन्दीपदार्थ, तीक्ष्ण और रूक्षपदार्थ, वातकारक, वाहकारक, विलम्बम जीर्ण होनेवाले और भारीपदार्थ ये सब त्वाग देव । एवं मद्यपान, दूरमे पठना, मथुन, अत्यन्त शीतल-पदार्थोंका सेवन, दिनमें सोना, विंशप वकवाद, द्वेष, पवन, धूप, रात्रिमें जागना, चिन्ता, जोर, विपाद, दंड—कसरत, मदकारक और उन्माद करनेवाले पदार्थ, अनूपदेशके जीवोंका मांस और शीतल जल-पान इन सबको सदाके लिए छोड़देवे। इसपर कृकर, मोर, लवा, तीतर, खरगोश, बकरा, भेंडा और हिरनका मांस एवं जांगल प्रदेशके जीवोंका मांस, कालेहिरनका मांस, उडद, परवल, वैशुन खानेमें हितकारी मांसरस, सैधानमक, घी, धनिया, स्वस्ति-कधान्य, साठीधान्य, लालशालिचावल, तुपरहित मूंग, सुपारी, दाख, पके आम, मधुर और स्वादु-पदार्थ, आसव और जल ये सब हितकारी हैं। बुद्धिमान् तथा युक्तिपूर्वक विचार करनेवाला वैद्य औषधकं अन्त तक प्रातिसप्ताह क्रम क्रमसे इसकी मात्रा बढ़ाकर सेवन करावे। इस रसायनरा-जको विधिपूर्वक छः महीने पर्यन्त सेवन करनेसे मनुष्य मनके सम्पूर्णमनोरथोंको प्राप्त करता है, ऐसा महात्मा नागार्जुनने कहा है। इससे-सम्पूर्ण व्याधि और बलीपलित आदि रोगोंसे निवृत्त होकर मनुष्य अपूर्वतेजको धारण करनेवाला, गूर, प्राज्ञ, वाग्मी, चतुर और त्रिवर्ग, (धर्म, अर्थ, काम) का भाजन होता है। तथा मदीन्मत्त हाथीके समान बल, सुकु-मारता और उस्ताहसे सम्पन्न होकर सोलहवर्षकी अवस्थाके समान होजाता है। और उसके दीर्घाशुषी बहुतसी संताने होती हैं। इसका निरन्तर सेवन कर-नेसे पुरुष सर्वगुणसम्पन्न होकर एकहजारवर्षपर्यन्त जीता रहता है। चन्द्रमाके समान कमनीय, काति-युक्त और पवनके समान बलवान् तथा सूर्यके समान तेजस्वी होता है। युक्तिपूर्वक प्रयोग की हुई यह रसायनराज-शोष, यकृत, अतिसार, प्रीहा, अप-स्मार, सिध्म, राजयक्ष्मा, खाँसी, श्वास, विसर्प, संप्रहणी, गुल्म, पथरी, शोथ, प्रदर, जलोदर, भस्मक, वमन, पामा, उलीपद, प्रमेह, विवन्ध, भगन्दर, कोढ, विपमञ्जर, पांडुरोग, कर्णरोग, मुखरोग, उदररोग, नेत्ररोग, शिरोरोग और मूत्रकृच्छ्र इन सब रोगोंको शीघ्रही नष्ट करदेती है। एवं आमवात,

कफ, पित्त, रक्तपित्त, उदररोग, भंडामि, वातजनित सम्पूर्ण रोग और पित्तजनित समन्तरोगोंको नष्ट करती है। नागार्जुन रचिन रसायनमंदिताको देख-कर और सम्पूर्ण रोगोंकी चिकित्साको विचार कर श्रीविश्वरूपने यह राजरसायन कही है ॥१३६-१६६

अभ्रक ।

गगनमुल्लायलक्षुण्णंकाञ्जिकवृश्चिविज-
लदनादरसः । कुलिररसमुनिरसा-
भ्यां पिष्ट्वा प्रत्येकशः पुटितम् ॥१६७॥
सौवीरादिरसेन सम्पन्नं प्राप्य रवि-
करैः शोष्यम् । मिलितत्रिफलात्रि-
कटुकविडङ्गचूर्णञ्च पादसमम् ॥१६८॥
घृतमधुसिताविमिश्रं प्रातः कृत्वाष्ट-
माषपरिमाणम् । शिशिरसलिलानु-
पानं भोजनमिह मासमुद्गादि ॥१६९॥

अभ्रकको ओखलीमें कूटकर काँजी, पुन-
नवा, नागरमोथा, चौलाई, काकड़ासिगी और
अगस्तिया इन सबके काथ या रसमें
अलग अलग पीसकर पुट देवे। फिर काँजी
आदिसे युक्त करके इस अभ्रकको सूर्यकी धूपमें
सुखावे। पश्चात् इसमें त्रिफला, त्रिकुटा और वाय-
विडंग प्रत्येकका चूर्ण अभ्रकसे चौथाई भाग तथा घी
शहद और मिश्री इन सबको मिलाकर प्रतिदिन
प्रातःकाल आठ २ मासे परिमाण सेवन करे, ऊपरसे
शीतल जलका अनुपान करे और इसपर मांस, मूंग
आदिका भोजन करे ॥ १६७-१६९ ॥

साधितं यः सदा भुंक्ते पञ्चभूतमिदं
नरः । अभ्रकमूचिमस्तत्र जायन्ते ये
गुणानथ ॥ १७० ॥ घननिविडगूढ-
सन्धिः श्वसनबलोन्मत्तकुञ्जरप्राणः ।
सर्वद्वन्द्वसहिष्णुर्द्विरष्टवर्षाकृतं निचै-
रेव ॥ १७१ ॥

जो पञ्चमहाभूतमय मनुष्य इसको निरन्तर विधि-
पूर्वक सेवन करता है उसके जो गुण उत्पन्न होते हैं
उनको कहते हैं। वह मनुष्य अतीव सधन, कठोर,
गूढ, सधियुक्त, मत्त हाथीके समान बलवान्, श्वास-

युक्त, सर्वप्रकारके कष्टोंको सहनेवाला और सोलह वर्षके युवाके समान आकृतिवाला होजाता है ॥
॥ १७० ॥ १७१ ॥

उमाभाषित अभ्रक ।

रजनीकराक्षयपक्षे प्रशस्ततिथिनक्ष-
त्रकरणयोगेन । सितकुसुमाद्यैस्तु बलि
दद्यात्साधुप्रयत्नेन ॥ १७२ ॥ अङ्गाररा-
शिदहनज्वालातिध्मातमग्निवर्णतत् ।
आकरदोषोत्थित्यै पयसि सुवाप्य
धारयेत्तदतु ॥ १७३ ॥ असकृत् कृतै-
कपत्रं मरिचजलेन त्र्यहं च पर्युषितम् ।
शुक्लामलमसृणायां शिलायां वर्तये-
द्बहुशः ॥ १७४ ॥ शुचिभाजनोदरस्थं
सम्यक्सितविपुलवस्त्रसंछन्नम् । परि-
पीतसकलसालिलं दिनकरकिरणस्तु
कुर्वीत ॥ १७५ ॥ घनरजसः पलमेकं
तण्डुलमेकञ्च परिगृह्य । त्रिंशत्पलानि
पयसो व्योषं सदुग्धघृतमन्नभुक् ॥ १७६ ॥
मासेन गुणगणांश्च स प्राप्नोति नररत-
माख्यातः । घनकुञ्चितनीलकचो दु-
न्दुभिनादविरहितश्रवणः ॥ स नरो
वाग्मी श्रुतिवाञ्छास्त्रविज्जीवेद्ब्रह्मणो
दिवसम् ॥ १७७ ॥

शुक्लपक्षकी शुभ तिथि, शुभनक्षत्र, उत्तम करण और उत्तमयोगमें सफेद फूल आदिसे बलि देकर बुद्धिमान् वैद्य यत्नपूर्वक अभ्रकको लेकर कोयलोंकी अग्निमें रखकर धोंकनीसे फूँके । जब उसका अग्निकी समान लालरंग होजाय तब खान (पर्वत)के दोषोंको दूर करनेके लिये उसको दूधमें डालदेवे फिर इसके बहुतसे पत्र करके उनको लाल मिरचोंके पानीमें डालकर तीन दिनतक रक्खा रहने देवे पश्चात् सफेद स्वच्छ और चिकनी शिलापर बहुत देरतक पीसे फिर शुद्ध पात्रमें एक सफेद और बड़ा वस्त्र बिछाकर उसमें उसको छानकर सूर्यकी किरणोंसे उसके जल आदिको सुखावे । ऐसे अभ्रकका चूर्ण चार तोले, चावल ४ तोले, जल ३० पल और त्रिकुटेका चूर्ण इन सबको एकत्र मिलाकर सिद्ध करे । फिर प्राति-

दिन इसको यथाशक्ति सेवन करे । और इसके ऊपर घी, दूध तथा चावलोंका भात खाय । इस औषधको एकमहीनेतक सेवन करनेसे मनुष्य अनेकगुणोंके समूहको प्राप्त होता है तथा श्रेष्ठमनुष्योंमें प्रसिद्ध होता है । उसके बाल सघन, कुञ्चित और नीलवर्णके हो जातेहैं । तथा श्रवण दुन्दुभि आदि शब्दों रहित और निर्विकार होजाते है । वह मनुष्य-वाग्मी और सुनते ही शब्दोंको धारण करनेवाला एवं शास्त्रोंको जाननेवाला होकर ब्रह्माके दिनतक जीता रहता है ॥ १७२-१७७ ॥

तृतीय अभ्रक ।

अभ्रं चतुष्पलं ग्राह्यममलं धौतशो-
षितम् । पत्रितं लोहपात्रस्थं तण्डु-
लीयरसाप्लुतम् ॥ १७८ ॥ गोजीर-
सेन समर्घ मृदुपंकसमं कृतम् । वचा-
विडङ्गचूर्णेन तुल्यभागेन योजितम्
॥ १७९ ॥ झिण्टीप्रवर्तकाकासभृङ्ग-
राजतिलद्रवैः । प्रत्येकं क्रमशो दत्त्वा
प्रस्थाद्भिर्घट्टयेत्ततः ॥ १८० ॥ पिष्ठा-
ष्टमाषकान्दत्त्वा वटिकान्वर्तयेद्दि-
षक् । कवर्णाद्यञ्च द्रव्यादि सप्ताहत्रि-
तयं त्यजेत् ॥ १८१ ॥ ततो यथेष्टं
कुर्वीत व्यवयाश्रमभोजनम् । हन्त्ये-
तदम्लपित्तञ्च शूलाभवातपांडुताः ॥
प्लीहाग्निसादशोथाशौविष्टम्भग्रहणी-
गदान् ॥ १८२ ॥

स्वच्छ, धुलाहुआ और सुखाया हुआ ऐसा अभ्रक चार पल लेकर उसके पत्र बनाकरके उनको लोहके पात्रमें चौलाईके रस और गोजियाके रसके साथ अच्छे प्रकारसे मर्दन करके कीचड़के समान मृदु करलेवे । फिर इममे वच और वायवि-डंगका चूर्ण समान भाग तथा पियावाँमा, कर्नौदी, भौंगरा और तिल इन्हींके जलकी भावनादेकर पुट देवे फिर प्रत्येकका कल्क आधा २ प्रस्थ मिलाकर यथाविधिसे मर्दन करके पीसकर आठ आठ मासेकी गोलियां बनालेवे । पश्चात् इसको यथाशक्ति सेवन करे और इसपर ककारादिनामवाले पदार्थ

तीन सप्ताहतक छोटदेवे तथा यथेष्ट मैथुन, उत्तम भोजनादि श्रम करे । यह रसायन-अम्लपित्त, शूल, आमवात, पांडुरोग, प्रीहा, मंत्राग्नि, सृजन, ववासीर, त्रिष्टम्भ और संग्रहणी इन सब रोगोंको दूर करती है ॥ १७८-१८२ ॥

पानीयभक्तवटी ।

कृष्णाभ्रकपलमेकं संकुटयोलूखल तु मुसलेन । अम्लरसायनमेतत्क्षेप्या टंकोन्मिता पथ्या ॥ १८३ ॥ आर्द्र-करसेन भाव्यं शुष्कं कृत्वैतत्क्षिपेच्चूर्णम् । त्रिकटुत्रिफलामुस्तकचित्रकपयसाश्च पिचुमानम् ॥ १८४ ॥ कृमिरिपु चाक्षद्वितयं प्रक्षेप्यं चात्र गगनमानमयः । कृत्वा तोयेन वटीं प-पमाषोन्मितां भुक्त्वा च ॥ १८५ ॥ अम्लं वायुर्यनुपेयं दधिशुक्तं धार्यमनुदिवसम् । शूलं कफाम्लपित्तं विनिहन्ति वातरुजः सद्यः ॥ १८६ ॥

काले अभ्रकको चार तोले लेकर ओखलीमें ढालकर मूसलसे खूब कूटे । फिर इसको कांजीमें ढालकर और एक टंक हरडोंका चूर्ण मिलाकर अदरखके रसकी भावना देवे । फिर सुखाकर इसमें सोंठ, मिरच, पीपल, त्रिफला, नागरमोथा, चीता, और सुगन्धवाला यह प्रत्येक एक एक तोला और वायुविडंगका चूर्ण दो तोले तथा अभ्रकके समान लोहेका चूर्ण ढाले, सबको एकत्र पीराकर जलके योगसे छः छः मासेकी गोलियां बनालेवे । प्रतिदिन प्रातःकाल इसकी एक गोली सेवन करे और ऊपरसे कांजीका अनुपान करे, तथा नित्य दही और शुक्त भोजन करे । यह गोली-शूल, कफ, अम्लपित्त और समस्त वातके रोगोंको तत्काल दूर करती है ॥ १८३ ॥ १८४ ॥ १८५ ॥ १८६ ॥

द्वितीय पानीयभक्तवटी ।

त्रिफला त्रिकटुकनुस्तविडङ्गभल्लातककेसराणाम् । करिवर्त्तच्छददन्ती तंडुलिकापुनर्नवाविष्टता ॥ १८७ ॥ चि-

त्रद्विजीरकचूर्णान्येकत्र कर्षमितानि कार्याणि । गन्धतिलाः कर्षार्धं गगनपलशोधितं विधिवत् ॥ १८८ ॥ अम्लशुक्तभक्तपयसि दत्त्वा कुर्यार्धमाषिकां वटिकाम् । अम्लं वायुर्यनुपेयं कार्यं तदधिविहितपथ्यम् ॥ १८९ ॥ कफातिदुष्टवह्नेर्नातः परमत्र भेषजं दृष्टम् । हन्यात्तदामवातं ग्रहणीगदगुल्मशूलरुजः ॥ १९० ॥

त्रिफला, त्रिकुटा, नागरमोथा, वायुविडंग, भिल्लवे, नागकेसर, हस्तिकर्ण, पलाशके पत्र, दंती, चोंलाई, पुनर्नवा, निसोत, चीता, जीरा और काला जीरा ये प्रत्येक औषधि एक २ तोला, शुद्ध गन्धक ६ मासे, तिल ६ मासे और विधिपूर्वक शुद्ध भस्म किया हुआ अभ्रक ४ तोले लेवे । इन सबको एकत्र पीसकर कांजी, शुक्त और भातके मांडमें खरल करके आधे आधे मासेकी गोलियां बनालेवे । फिर प्रति दिन प्रातःकाल एक गोली खाय और कांजीका अनुपान करे तथा यथोक्त पथ्य सेवन करे । कफसे अत्यन्त दुष्ट हुई अग्निके लिए इससे उत्तम अन्य औषध नहीं है । यह वटी-आममात, संग्रहणी, गुल्म और शूलको नष्ट करती है ॥ १८७-१९० ॥

तृतीय पानीयभक्तवटी ।

ग्रन्थिक त्रिफलाचित्र त्रिवृल्लोहितकुम्भकी । एषां कर्षार्द्धिकं चूर्णं प्रत्येकं तावदुन्मितम् ॥ १९१ ॥ त्र्युषणं लवणं पाक्यं विडङ्गं कार्षिकं पृथक् । पलं कृष्णाभ्रकश्चैवमन्तर्दग्ध्वा विनिःक्षिपत् ॥ १९२ ॥ तेनैव पेषणं कृत्वा सर्वमेकत्र योजयेत् । शिखर्यार्द्रिकानिगुण्डीनागवल्लयस्थिसंहता ॥ रसैर्द्रिपालिकैरेषां वटी भाव्याक्षसंमिता ॥ १९३ ॥

पीपलामूल, त्रिफला, चीता, निसोत और लाल कुम्भी, इन प्रत्येकका चूर्ण छः छः मासे, सोंठ, मिरच, पीपल, संधानमक, कालानमक और वायुविडंग इन प्रत्येकका चूर्ण एक एक तोला और

जिसमें बाहर धुआँ न निकले इसप्रकार भस्म किया हुआ अभ्रक ४ तोले लेवे, सबको एकत्र मिलाकर खूब पीसे । फिर चिरचिटा, अदरख, निर्गुण्डी; पान और हडसंधारी इन प्रत्येक औषधिके दो दो पल रसमें भावना देकर एक एक तोलका गोली बनालेवे ॥ १९१ ॥ १९२ ॥ १९३ ॥

चतुर्थ पानीयभक्तवटी ।

विडङ्गं पिप्पलीमूलं त्रिफला मुनिजं फलम् । लोहकं गन्धक चित्रं पलाद्धं चूर्णितं पृथक् ॥ १९४ ॥ त्र्यूषणं चूर्णितं ग्राह्यं सार्द्धं द्विपलिकं पृथक् । अम्लशुद्धाभ्रकपलं कर्षार्थं पारदस्य च ॥ १९५ ॥ अस्तिसंहारनिर्गुण्डी नागवल्लयार्द्रकैः शुभैः । रसैश्चतुष्पलैरेवं भावयित्वा पृथक् पृथक् ॥ १९६ ॥ यथाग्निं भक्षयेदतां वटीमनुपिवेज्जलम् । वारिभक्तञ्च भुञ्जति कुर्यात्पूर्वोक्तकान्गुणान् ॥ १९७ ॥

वायविडंग, पीपलामूल, त्रिफला, अगस्तियाके फल, लोह, शुद्ध गंधक और चीता ये प्रत्येक औषधि चूर्ण की हुई दो दो तोले, त्रिकुटेकी प्रत्येक औषधि दश दश तोले, कांजीमे शुद्ध किया हुआ अभ्रक भस्म ४ तोले और शुद्ध पारा या चन्द्रोदय आधा कर्ष (छः मासे) परिमाण लेवे † इन सबको एकत्र पीसकर हडसंधारी, निर्गुण्डी, नागरेलके पान और अदरख इन प्रत्येक औषधिके चार २ पल रसमें अलग अलग भावना देकर गोलियां बनालेवे । फिर अपनी अग्निका बलाबल विचार कर नित्य प्रातः-काल एक गोली खाय और ऊपरसे जलका अनुपान करे इसपर भातका पानी पीवे यह वटी भी पूर्वोक्त गुणोंको करती है ॥ १९४-१९७ ॥

पञ्चम पानीयभक्तवटी ।

गन्धार्द्रकरसस्तुल्यो विडङ्गमरिचार्द्रकैः । त्रिफलात्रिवृतावह्निः कणादन्ती पुनर्नवा ॥ १९८ ॥ त्वक्क्षीरं

माणिकुलिशयवागूरागखण्डिकाः । प्रत्येकैकं पलं चूर्णमुष्णपानीयकं हविः ॥ १९९ ॥ अभ्राच्चतुष्पलं चूर्णमेकीकृत्वार्द्रकांबुना । त्रिफला पयसा भाव्या कोलाद्धमानकी वटी ॥ २०० ॥ भक्तोदकानुपानेन सेव्या वह्निप्रदीपनी । अम्लपित्तामवातादीन्हन्ति पयसान्नभोजनम् ॥ २०१ ॥

प्रथम शुद्ध गंधकको लेकर बराबर अदरखके रसमें खरल करे, पश्चात् इसमें वायविडंगका चूर्ण, कांलीमिरच, अदरख, त्रिफला, निसोत, चीता, पीपल, दंती, पुनर्नवा, वंशलोचन, मानकंद, हडसंधारी, यवागू और रागखाण्डव ये प्रत्येक चार चार तोले, तथा गरम जल, घृत और अभ्रकका चूर्ण चार पल लेवे । इन सबको एकत्र करके अदरखके रसमें, त्रिफलेके जलमें और दूधमें भावना देकर छः छः मासकी गोलियां बना लेवे इन गोलियोंको नित्य भातके जलके साथ सेवन करे । इससे अग्नि अत्यंत दीपन होती है तथा अम्लीपित्त और आमवातादि समस्त रोग दूर होते हैं । इसपर दूधके साथ भातका भोजन करना चाहिए । ॥ १९८ ॥ १९९ ॥ २०० ॥ २०१ ॥

अभ्रकसन्धान ।

भेकदलावरुणाद्रैर्दण्डोत्पलखण्डिकारुणशिखरिभिः । वचाभृङ्गराजमानैस्तण्डुलीयकामरावतीभिः ॥ २०२ ॥ सूरणपुनर्नवाभिर्गगनं पृथगेव भावितं नूनम् । खरतरणिकरार्पणशोषणशुद्धिविधातव्या ॥ २०३ ॥ (१) पलमेकं छिन्नरुहा कृष्णागुडूचीसत्वपलमेकम् । अभ्रकमानं त्रिफलात्रिकटुरजः पारदानांश्च ॥ २०३ ॥ (२) प्रथमञ्च मधुसर्पिर्भ्यां मूर्च्छितेन रसेन मर्दयेद्भवाम् । तदनुत्रिफलारजसा तदनुगुडूच्याः सत्त्वेन ॥ २०४ ॥ तदनुत्रिकटुरजोभूयिष्ठमवनितमवदाय । स्निग्धे निधाय भाँडे रक्षन्सुव-

† यदि पारद डाले तो पहले गन्धक और पारदको पीस कनलिके कले फिर और औषधि मिलाने ।

स्त्रापिहितमुखे ॥ २०५ ॥ खादेद्रोज-
नमादौ मध्ये चान्ते च वारमेवैकम् ।
जलमभिपिवेद्रसाम्लं रक्तीवृद्ध्या
द्विगुणमेव ॥ २०६ ॥ जीरं दधि चात्र
घृतं सपूतमस्थिमांसानि । नाद्याद-
शेषशाकं मद्यं जीर्णमन्नञ्च ॥ २०७ ॥
हरति चाम्लपित्तं ग्रहणीं दुर्नामिका
मलादिरुजः । जनयत्यचिराद्गुधिरं
जठरानलपुष्टिदं परम् ॥ २०८ ॥

मण्डूकपर्णी, वरना, अदरक, दण्डोत्पल, खण्ड-
कर्णकन्द, लालचिरचिटा, वच, भांगरा, मानकंद,
चौलाई, गिलोय, जिमिकंद और पुनर्नवा इन प्रत्ये-
कके स्वरस अथवा काथमें मृत अभ्रकको अच्छेप्र-
कारसे भावना देकर सूर्यकी तीक्ष्ण धूपमें सुखावे ।
पश्चात् इसमें गिलोय चार तोले, पीपल ४ तोले और
गिलोयका सत्व ४ तोले तथा अभ्रकके समान
त्रिफला, त्रिकुटा और पारा मिलावे । प्रथम उसको
ग्रहद और वीमें मूर्च्छित करके गायके दूधके साथ
मर्दन करे, फिर त्रिफलेके चूर्णके द्वारा, गिलोयके
सत्वके द्वारा और त्रिकुटेके चूर्णके द्वारा, खरल
करके एक उत्तम चिकने वासनमें भरकर रखदेवे
और उस वासनका मुख उत्तम कपडेसे अच्छेप्रकार
बांधदेवे । इसमेंसे प्रतिदिन एक एक रक्ती मात्रा बढा-
कर भोजनके आदि, भोजनके मध्य और भोजनके
अंतमें नित्य एकवार खाय और ऊपरसे कांजी अथवा
माडका अनुपान करे । इसपर जीरा, दही, घी और
अस्थिरहित पवित्र मांस ये सब हितकारी हैं । तथा
सर्वप्रकारके शाक, मदिरा और पुराना अन्न ये सब
त्याग देवे । यह-अम्लपित्त, संग्रहणी, ववासीर और
कामलादि रोगोंको दूर करता है । तथा शीघ्रही शरी-
रमें रुधिरको उत्पन्न करता है और अग्निको अत्यंत
दीपन करता है ॥ २०२-२०८ ॥

षष्ठी पानीयभक्तवटी ।

मानकन्दोऽथकर्णश्च त्रिवृता मुस्तकं
समम् । त्रिकटुत्रिफलाभृङ्गमपामा-
र्गश्च दाडिमम् ॥ २०९ ॥ लावीवृह-
तिकाजातीद्वयञ्च शतपुष्पिका । सु-

र्यावर्तस्तालमूलीचूर्णमेपाञ्च का-
र्पिकम् ॥ २१० ॥ विडङ्गचूर्णं द्विगुणं
पादहीनञ्च गन्धकम् । चतुर्गुणाभ्रकं
कार्यं गुडूचमपि तद्गुणाम् ॥ २११ ॥
सुचूर्णमभ्रकं वस्त्रपातितं काञ्चिके
क्षिपेत् । अम्ले पयसि वा पश्चाद्-
द्धरेत्पञ्चमेऽहनि ॥ २१२ ॥ मंडूरपे-
षितापेण्य वंशपत्ररसेन च । ततः
पुटानि देयानि वक्ष्यमाणैर्महौष-
धैः ॥ २१३ ॥ वंशपत्ररसैः पूर्वं पुट-
येदातपे भिषक् । मंडूरपर्णी चित्रञ्च
दन्तीरसपुनर्नवा ॥ २१४ ॥ त्रिवृत्ता-
तालपाटोलं चास्थसंहार एव च ।
आर्द्रकं तालमूली च सूर्यावर्तञ्च
शिम्विका ॥ २१५ ॥ केशराजो भृ-
ङ्गराजः शतमूली च मुस्तकम् ।
ततः प्राक्षिप्य चूर्णानि हिंशुनोऽथ च-
तुष्टयम् ॥ २१६ ॥ सप्तधा पेषयेद्गाढं
त्रिफलाकाथवारिणा । तेनैव गुटिकाः
कुर्व्यान्माषैकैकप्रमाणिकाः ॥ २१७ ॥
वाटिकाद्वितयं भक्ष्यमम्लवाय्यनुपा-
नतः । वयोवस्थामग्निबलं व्याधिं
प्रकृतिमेव च ॥ २१८ ॥ दृष्ट्वा मात्रां
प्रयुञ्जीत यथा क्षेपः प्रदीयते । ग्रह-
णीमम्लपित्तञ्च पित्तश्लेष्माणमेव च
॥ २१९ ॥ अर्शांसि वह्निसादञ्च प्लीहा-
नमरुचिन्तथा । वाटिकेयं निहन्त्याशु
नात्र कार्या विचारणा ॥ २२० ॥ नि-
र्वापयेच्च मंडूरं त्रिफलाया रसे शुभे
सूर्यावर्तरसे वाथ उभयत्र च वा भि-
षक् ॥ २२१ ॥ तत्तु संचूर्णितं वस्त्रप-
तितं स्थापयेद्भिषक् । ततः काञ्चिक-
निक्षेपं समुद्धारादिसंस्कृतम् ॥ २२२ ॥

मानकन्द, अश्वकर्ण, निसात, नागरमोथा,
त्रिकुटा, त्रिफला, भांगरा, चिरचिटा, अनार, लौकी

(तोम्बी), बडी कटेरी, दोनों चमेली, सौंफ, हुलहुल और सुसली, इन प्रत्येकका चूर्ण एक ३ तोला, वाय-विडंगका चूर्ण २ तोले, गंधकका चूर्ण ९ मासे, अभ्रक भस्मका चूर्ण ४ तोले और गिलोयका चूर्णभी चार तोले लेवे । इन अभ्रक आदि समस्त औषधियोंको अच्छे प्रकारसे चूर्ण करके वस्त्रमें छानकर कांजीमें डालदेवे । फिर खटाईके जलमें अथवा नींबूके रसमें किम्वा दूधमें डालकर रखदेवे, फिर पाँचवे दिन निकाले । फिर बहेडेकी लकड़ियोंके कोयलोंमें शुद्ध किये मण्डूरको वंशपत्रीके रसके द्वारा पीसकर आगे कही हुई औषधियोंके द्वारा पुट देवे । प्रथम वैद्य वंशपत्रीके रसके द्वारा पुट देवे, पश्चात् मण्डूरकपर्णिके रसके द्वारा पुट देवे । फिर इसी क्रमसे चीता, दन्ती, पुनर्नवा, निसोत, ताड़, परवल, हडसंहारी, अदरक, सुसली, हुलहुल, सेस, कुकुरभाँगरा, भाँगरा, शतावर और नागरमोथा इन प्रत्येकके रस में पास पीसकर अलग २ पुट देवे । पश्चात् चारों प्रकारकी हींगका चूर्ण डालकर त्रिफलेके काथमें सात बार खूब दृढतासे पेपण करे । फिर सुखाकर एक एक मासेकी गोली बनालेवे । इसकी प्रातिदिन दो गोली खाय और ऊपर कांजीका अनुपान करे । रोगीकी अवस्था, अग्निका बलावल, रोगकी व्यवस्था और रोगीकी प्रकृति इनसबको अच्छेप्रकारसे विचार कर प्रक्षेप आदिको औषधि डालनेकी मात्राका यथा योग्य निरूपण करे । यह गोली-संग्रहणी, अम्ल-पित्त, पित्त, कफ, ववासीर, मन्दाग्नि, प्लीहा और अरुचि इन सब रोगोंको निश्चय दूर करती है । इसमें मण्डूरको उत्तम त्रिफलेके रसमें अथवा हुलहुलके रसमें किम्वा त्रिफला और सूर्यावर्त दोनोंके रसमें डालकर छायामें सुखा लेवे । फिर चूर्ण करके वस्त्रमें छानकर और कांजीमें डालकर संशोधन करे ॥ २०९-२२२ ॥

अथ लोहरसायन ।



सूर्यमयूखसे लोहमारण ।

सर्वेषां लोहजातीनां कान्तं भवति कान्तिदम् । तथा कान्तं विशेषण भवेत्तद्गुणं स्मृतम् ॥ २२३ ॥ एका-

न्ते च पचेल्लोहमादौ शस्ते दिने त-
तः । धात्रीपिण्डारकोद्भूतस्वरसेना-
करशिमाभिः ॥ २२४ ॥ स्थापयेद्य-
द्भवेच्चूर्णं ग्राहयेत्तु पृथक्पृथक् उच्चटा-
स्वरसेनैव पूर्वोक्तेनैव भावयेत् ॥ २२५ ॥
धात्र्यश्वगन्धयोः पिण्डारकस्यापि
रसेन च । मिलित्वैवं पुनर्भाव्यं प्रचं-
डरविरशिमाभिः ॥ २२६ ॥ काकमा-
चीरसेनैव स्थापनीयं पुनः पुनः ।
भावनान्ते च सर्वत्र खल्लितव्यं प्रय-
त्नतः ॥ २२७ ॥ पश्चाच्चूर्णं विधातव्य-
मप्रमत्तेन धीमता । इदं सूर्यमयूखे-
न मारणं परिकीर्तितम् ॥ २२८ ॥
धात्रीपिण्डारकरजः स्वरसेन प्रकल्प-
येत् । नारिकेलस्य पात्रे तु भावना-
विधिरिष्यते ॥ २२९ ॥

सर्वप्रकारके लोहोंमें कातलोह कांतिजनक है, इस कारण कांतलोह विशेष गुणवाला कहा जाता है । प्रथम शुभदिनमें कान्तलोहको लेकर आमले और पिण्डारकके स्वरसके साथ एकान्त स्थानमें सूर्यकी धूपके द्वारा अलग अलग पकावे । फिर चूर्ण करके उच्चटाके स्वरसमें पूर्वोक्तविधिसे भावना देवे पश्चात् आमले, असगन्ध और पिण्डारकके रसमें मिलाकर इसी प्रकार फिर दूसरी बार प्रचंड सूर्यकी धूपमें पकावे । तदुपरान्त मकोयके रसमें वारम्बार भावना देकर वारम्बार खरल करे । प्रत्येक भावनाके अन्तमें वरावर खरल करना चाहिये फिर बुद्धिमान् वैद्य प्रमादरहित होकर इसका चूर्ण करले । यह सूर्यकी किरणोंके द्वारा मारण कहा है । यहां भावना देनेके लिये आमले और पिण्डारकके चूर्णका स्वरस बनाकर उसके द्वारा नारियलके पात्रमें भावना देनी चाहिये ॥ २२३-२२९ ॥

सूर्यमयूखके द्वारा अभ्रकमारण ।

एकपत्रीकृतं कृष्णमभ्रकं वज्रसंज्ञि-
कम् । भावयेद्विद्विदिवसं जम्बीररस-
काञ्जिकैः ॥ २३० ॥ त्रिफलाया रसे

भाव्यं ततः शिशुरसे पुनः । प्रत्येकशः
शोधितव्यं सूक्ष्मं खल्लेन बुद्धिमान् ॥
॥२३१॥ ततो लज्जालुकरसे वाजिग-
न्धारसे तथा । भावनं खल्लके कार्य-
मिति चाभ्रकमारणम् ॥ भावना ना-
रिकेलस्य पात्रे नान्यत्र शस्यते ॥२३२॥

वज्रसंज्ञक कृष्ण अभ्रकको एक पत्री करके दो
तीन दिनतक जम्भीरीनीबूके रसमें, कांजीमे, त्रिफले-
के रसमें और सहिजनेके रसमें अलग अलग भा-
वना देकर सूर्यकी प्रचंड धूपमें रखकर खरलमें
खूब वारीक खरल करे । पश्चात् लज्जावंतीके रसमें
और असगंधके स्वरसमें, या काथमें पूर्वोक्तविधिसे
भावना देकर खूब खरल करे । यह सूर्यकी धूपसे
अभ्रकका मारण कहा है । इसमें नारियलके पात्रमें
भावना नहीं देनी चाहिए । किन्तु और सर्वत्र नारि-
यलका पात्र लेना चाहिये ॥ २३० ॥२३१॥२३२॥

सप्तम पानीयभक्तवटिका ।

तिवृता चित्रकं मुस्तं त्रिफलाभ्युषणं
तथा । एकैकशो मतो भागस्तदर्धं
रसगन्धयोः ॥ २३३ ॥ लोहाभ्रकवि-
डङ्गानां भागश्च द्विगुणो भवेत् ।
एतत्सकलचूर्णन्तु चूर्णयित्वा विच-
क्षणः ॥ २३४ ॥ त्रिफलायाः कषायेण
गुटिकां कारयेद्विषक् । तत्रैकां भक्ष-
येत्प्रातर्भक्तवारि पिबेदनु ॥ २३५ ॥
पंक्तिशूलं त्रिदोषोत्थमम्लपित्तं वमिं
तथा । हृच्छूलं पार्श्वशूलञ्च वस्तिकु-
क्षिगुदारुजम् ॥ २३६ ॥ कासं श्वासं
तथा कुष्ठं ग्रहणीदोषमामजम् । यकृ-
त्प्लीहादरं गुल्मं यक्ष्माणं ग्रहमेव च
॥२३७॥ विष्टम्भमामदाँबेल्यमग्निसा-
दं नियच्छति । सर्वानेताळ्ठमयाति
भास्करस्तिमिरं यथा ॥ २३८ ॥

निसोत, चीता, नागरमोथा, त्रिफला और
त्रिकुटा ये प्रत्येक औषधि एक एक भाग, शोधित
पारा और गंधक आधा २ भाग, लोह, अभ्रक

और वायविडंग ये प्रत्येक दो दो भाग लेवे । इन
सबको एकत्र चूर्ण करके त्रिफलेके काथमें खरल
करके गोली बना लेवे । उनमेंसे प्रतिदिन प्रातः-
काल एक गोली खाथ और ऊपरसे कांजीका अनु-
पान करे । यह गोली-परिणामशूल, त्रिदोषजनित
अम्लपित्त, वमन, हृदयशूल, पार्श्वशूल, वस्तिरोग,
कुक्षिरोग, गुदादोग, खोंसी, श्वास, कोढ, आमदो-
षजनितसंग्रहणी, यकृत, प्लीहा, उदररोग, गुल्म, राज-
यक्ष्मा, विष्टम्भ, आम, दुर्बलता और मंदाग्नि
इन सबको इसप्रकार नष्ट करती है, जिसप्रकार सूर्य
अन्धकारके समूहको नष्ट करदेता है ॥२३३-२३८

सर्वतोभद्रलोह ।

गव्येन नवनीतेन स्वर्णमाक्षिकवृश्चि-
कौ । निष्पिष्य लेपयेच्छोहं कान्तपां-
ड्यादिसम्भवम् ॥ २३९ ॥ धमापयेत्क-
र्मकाराग्रौ सित्त्वा सित्त्वा पुनःपुनः।
त्रिफलाकाथतोयेन ततो निर्वापये-
त्सुधीः ॥ २४० ॥ पश्चात्संपिष्यते लो-
हं दाहयेत्पुटवह्निना । अश्वेराकृष्य
विधिना जलधौतं प्रयत्नतः ॥ २४१ ॥
श्लक्ष्णचूर्णं ततः कृत्वा बहुवृष्टन्तु का-
रयेत् । पलं चतुष्टयं तस्य मधूकस्या-
पि तत्समम् ॥ २४२ ॥ पथ्याधात्री-
विभीतक्या रसश्च त्रिकटोस्तथा ।
वचावह्निविडङ्गानि कृष्णजीरकजी-
रके ॥ २४३ ॥ दन्तीपुनर्नवामूली प्र-
त्येकं पलसंख्येया । एलायाः कर्षकं
दद्यात्कार्षिकं कटुरोहिणी ॥ २४४ ॥
एलार्धं गन्धकं देयं पलार्द्धं गुग्गुलु-
त्वचम् । चूर्णयित्वा विधानेन सर्वमे-
कत्र कारयेत् ॥ २४५ ॥ घृतमष्टपलं
दत्त्वा क्षीरं चतुःशरावकम् । चतुर्विं-
शपलकाथे त्रिफलाशेषवारिणा ॥२४६॥
वस्त्रपूतेन विधिवत्पाचयेत्ताम्रभाज-
ने । दावीं लोहमयीं गृह्य पाकं कु-
र्याद्विपाकवित् ॥ २४७ ॥ शीतल-

उच्यतेः कुय्यात्स्निग्धे भाण्डे निधा-
पयेत् । रक्तिकादिक्रमेणैव घृतेन म-
धुना सह ॥ २४८ ॥ संमर्द्य लोहद-
ण्डेन लोहपात्रे च भक्षयेत् । क्षीरा-
नुपानं दातव्यं पित्तदुष्टाय रोगिणे ॥
॥ २४९ ॥ तथा मकोष्ठिने दद्याद्यवक्षा-
रस्य वारिणा । मूर्च्छाच्छर्दिन्तृषारक्तपि-
त्तशूलादिसम्भवे । क्षीरं शर्करया मि-
श्रं ह्यनुपानं प्रयोजयेत् ॥ २५० ॥ चतु-
र्धा ग्रहणी ज्ञेया वातपित्तकफोद्भवा ।
ज्ञात्वा कुक्षौ मनावच्छूलमामगन्ध स-
लोहितम् ॥ २५१ ॥ कुक्षौ दक्षिणतः
शूलं नाभिमण्डलतोपरि । वात पित्त-
निदानं हि लक्षयित्वा प्रदीयते ॥
॥ २५२ ॥ नारिकेलञ्च समधु पानञ्च
हितमिच्छता । रक्तच्छर्द्या विगन्धत्व-
मीषत्पानन्तु पैत्तिके । क्षीरं शर्करया
युक्तमनुपानन्तु दापयेत् ॥ २५३ ॥
कटिशूले त्रिकशूले कुक्षिशूले अरो-
चके । आमवातनिदाने च मुखस्त्रावे
प्रकीर्तितम् ॥ २५४ ॥ पार्श्वशूले उरः-
शूले नाभिमण्डलतोपरि । ज्वरे सशूले
सामे च वायुमामं निवर्तयेत् ॥ २५५ ॥
क्वचिन्नाभेरधः शूले वामपार्श्वे क्वचि-
द्भवेत् । शूले वा परिणामे च भ्रमे
पृष्ठे क्वचित्क्वचित् । शीतलेन यवक्षा-
रमनुपानञ्च वारिणा ॥ २५६ ॥

कांत अथवा पाण्ड्य आदि लोहेको लेकर उसपर
गायका नैनी घी, सोनामाखी और विछाटी इनको
एकत्र पीसकर कटकवेधी चंत्र बनाये हुए लोहेपर
लेप करदेवे । फिर उस लोहेको लोहारकी धौंकनी
में रखकर फूँके और त्रिफलाके काथमें बुझावे इस-
प्रकार बारम्बार त्रिफलेके काथमें बुझावे । फिर यत्न-
पूर्वक लोहेको पीसकर अग्निके द्वारा पुट देवे ।
पश्चात् अग्निसे निकाल कर उसको विधिपूर्वक
जलसे धोवे और वारीक चर्ण करके बहुत

समयतक घिसे । फिर ऐसे लोहेका चूण १६ तोले,
मुलैठी १६ तोले, तथा हरड, आमले, बहेडे और
त्रिकुटा इनका काथ, वच, चीता, वायविडंग, काला-
जीरा, जीरा, दंती, पुनर्नवा और शतावर ये प्रत्येक
औषधि चार चार तोले, इलायची एक तोला, कुटकी
एक तोला, शुद्ध गन्धक ६ माशे गूगल २ तोले और
दालचीनी २ तोले लेकर इन सबको एकत्र पीसकर
चूर्ण करलेवे । फिर इस चूर्णको आठ पल घी और व-
त्तीस पल दूध तथा वस्त्रमें छानकर त्रिफलेके चौबीस
पल काथमें मिलाकर सबको तौबेके पात्रमें करके
पाकको जाननेवाला वैद्य यथाविधि लोहेकी करछीसे
पकावे । जब वह पककर स्त्रयं शीतल होजाय तब
उसको चिकने वासनमें भरकर रखदेवे । फिर
उसको प्रतिदिन एक एक रत्तीके क्रमसे घी और
शहदके साथ लोहेके डंडेसे लोहेके पात्रमें मर्दन
करके भक्षण करे । दुष्टपित्तवाले रोगीको इस लोह
पर दूधका अनुपान कराना चाहिये । आमकोष्ठरो-
गीको जवाखारके जलके साथ सेवन कराना चाहि-
ये । तथा मूर्च्छा, वमन, तृषा, रक्तपित्त और पित्त-
गूलादिमें मिश्री मिलाये हुए दूधका अनुपान कराना
चाहिये । वातज, पित्तज और कफज एव त्रिदोषज
इन चारों प्रकारकी संग्रहणीको जानकर तथा धीरे २
कुक्षिमें शूल हो, आमगन्धयुक्त और लालरंगका मल-
त्साव हो अथवा कुक्षिमें दहिनी ओर और नाभिम-
ण्डलके ऊपर शूल हो तो उसमें वातपित्तका निदान
समझकर इस औषधपर शहद डालकर जलका
अनुपान कराना चाहिए । गन्धयुक्त रुधिरकी वमनमें
और पैत्तिक शूलादिमें थोड़ीसी मिश्री डालकर उसका
अनुपान करावे । तथा कटिशूल, त्रिकशूल, कुक्षिशूल,
अरुचि, आमवात, मुखस्त्राव, पार्श्वशूल, उरःशूल,
नाभिमण्डलके ऊपर शूल, शूल और आमयुक्त ज्वर,
आमवात, कभी नाभिके नीचे शूल होनेपर, कभी
नाभिके वामपार्श्वमें शूल होनेपर अथवा परिणाम-
शूल, या कभी कभी भ्रम और पृष्ठशूल हो तो इन
सब रोगोंमें शीतलजल या जलमें जवाखार डालकर
उसके साथ यह औषध सेवन कराना चाहिये
२३९-२५६ ॥

प्रकम्पञ्चोर्ध्ववायुश्च हस्तकम्पं मुहुर्मु-
हुः । कुक्षिशूलं मूर्द्धशूलमूर्ध्वधूमश्च न-
श्यति ॥ २५७ ॥ हरीतकीयवक्षारं

सैन्धवं सितशर्करा । हिङ्गुघृतं नारि-
केलजलेन त्वनुपानकम् ॥ २५८ ॥

यह सर्वतोभद्र लोह-प्ररुम्प, ऊर्द्धवायु, वारंवार हाथोंका कौपना, कुक्षिशूल, मस्तकशूल और ऊर्ध्व-धूम इन सब रोगोंको हरद, जवाखार, सैधानमक, मिश्री, हींग, घृत और नारियलका जल, इनसबके अनु-पान द्वारा सेवन करनेसे नष्ट करता है २५७॥२५८

शुक्राश्मरीशुक्रस्रावे मूर्द्धशूलश्च पं-
क्तिकम् । कुक्षौ नाभौ भवेच्छूल मेह-
त्वं परिणामकम् ॥ २५९ ॥ रसं कू-
ष्मांडमज्जाया यवक्षारं सशर्करम् ।
एकीकृत्यानुपानन्तु दद्यादश्मारि-
गिणे ॥ २६० ॥

शुक्राश्मरी, शुक्रस्राव, मस्तकशूल, पंक्तशूल, कुक्षिशूल, नाभिशूल, प्रमेह और परिणामशूल इन सब रोगोंमें इस औषध पर पेटकी मज्जाके रसमें जवाखार और मिश्री डाल कर अनुपान करावे । इन्हीं सब अनुपानोंको एकत्र करके अश्मरीरोगीके लिए देवे ॥ २५९ ॥ २६० ॥

शर्करा छागलं क्षीरं शृङ्गाटककरी-
रकौ । त्रिफलाया रसं ग्राह्यं मूलमा-
म्रातकस्य च ॥ एकीकृत्यानुपानेन
शाम्येच्छुक्रप्रमेहकम् ॥ २६१ ॥

मिश्री, बकरीका दूध, सिंघाडे, बांसके अंकुर, त्रिफलेका रस और अम्बाडेकी जडका रस इन सबको एकत्र करके इस अनुपानके द्वारा उक्तऔषधि-कासेवन करनेसे शुक्रप्रमेह नष्ट होता है ॥ २६१ ॥

वातश्लेष्मप्रकृतिवाले रोगिके
लिये रसायन ।

त्रिगुणमायसं चूर्णं त्रिफला चाशुक्रा-
द्रसात् । द्विरष्टभागिनिवारिण्यष्ट-
शिष्टन्तु कारयेत् ॥ २६२ ॥ तेन पा-
दावशेषेण समेनाज्येन यत्नतः ।
रसेन बहुपुत्राया द्विगुणं क्षीरसम्पि-
तम् ॥ २६३ ॥ लोहमय्याऽर्ष्यैर्द्रव्य

पात्रे चायसि मृगमये । दिव्यौषधह-
तं लोहं प्रदुर्त्तुं संपुटादिभिः ॥ २६४ ॥
पचेत्पाकविधिज्ञैस्तु वह्निना मृदुना-
शनैः । अभ्रकं निहतं कृष्णं सूतक-
श्च विमूर्च्छितम् ॥ २६५ ॥ अयस-
श्चाद्भिभागश्च त्वादौ पाके प्रयोजये-
त् । रसेन त्रिफला दन्ती विडगं जी-
रकद्रयम् ॥ २६६ ॥ पलाशबीजं
हृषुषा चित्रकं वृद्धदारुकम् । ल-
तापलाशमूलश्च बृहत्पत्रं गुडत्वच-
म् ॥ २६७ ॥ व्योषं समं ग्रन्थिकश्च
गुडूचीतालमूलकम् । शिशुमन्थौ त-
थायासस्तथा च क्षीरकञ्चुकी २६८ ॥
कापालिकाकलिङ्गाख्यं गन्धानिम्ब-
यवानिकम् । चूर्णीकृत्य क्षिपेद्यत्ना-
ल्लोहाभ्रकसमं भिषक् ॥ २६९ ॥ वा-
तश्लेष्मप्रधानस्य संस्कृतं नागरेण चा
निहन्ति वातसन्दिग्धं कफजुष्टं तथैव
च ॥ २७० ॥ सद्यो वह्निकरं ह्येतद्रल-
पुष्टिकरं तथा । रसायनमिदं दिव्य-
ममृताख्यं परं शुभम् ॥ २७१ ॥

अभ्रक १ भाग, पारा १ भाग, लोहेका चूर्ण ३ भाग और त्रिफलेका चूर्ण ३ भाग लेवे । लोहेके चूर्णको और त्रिफलेके चूर्णको सोलह गुने जलमें पकावे । जब पकते पकते जल आठवाँ भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छानलेवे । फिर इस काथमें बराबरका घी, दुगुना शतावरका रस और दुगुना दूध, तथा दिव्यौषधियोंके द्वारा उत्तमप्रकारसे पुट ददेकर मारा हुआ लोहा एक भाग, उपर्युक्त विधिसे की हुई कणाभ्रककी भस्म और मूर्च्छित पारा ये लोहसे आधा आधा भाग इन सबको पाकसे पहले ही मिलाकर लोहेके पात्रमें अथवा मिट्टीके पात्रमें डालकर पाकको जाननेवाला वैद्य मन्द मन्द अग्निसे पकावे और लोहेकी करछीसे चलाता जावे । फिर त्रिफला, दन्ती, वायविडंग, जीरा, कालाजीरा, ढाकके बीज, हाऊवेर, चीता, विधारा, लतापलाशकी जड, लोध, दालचीनी, सोंठ, मिरच, पीपल, पीपलामूल,

गिलोय, मुसली, सहिजना, अरणी, जवासा, क्षीर-
मोद, विडंग, इन्द्रजौ, जवादिक्स्तूरी, नीम और अज-
वायन ये प्रत्येक औषध लोहे और अभ्रकके समान
भाग लेकर एकत्र चूर्ण करके उपर्युक्त औषधियोंमें
मिला देवे । पश्चात् सोंठके द्वारा इसका संस्कार
करके वातकफप्रकृतिवाले मनुष्यको देवे । यह रसा-
यन-वातकी पीडा और कफकी पीडाको दूर करता
है । तत्काल अग्निको दीपन करता है, बल और
पुष्टिको उत्पन्न करता है । यह अमृताख्य दिव्य
रसायन परम श्रेष्ठ है ॥ २६२-२७१ ॥

कफपित्तप्रकृतिवाले रोगियोंके लिये रसायन ।

कफपित्तविनाशाय लिख्यते चाधु-
ना पुनः । अरुचिं सकलां पुंसां
व्यपोहति वरः सदा ॥ २७२ ॥ मधुकं
पिंडखर्जूरं धान्यकं जीरकद्वयम् ।
व्योषं हविष्यमाजेयं शर्करा च पल-
द्वयम् ॥ २७३ ॥ तिक्तं वकश्व ताली-
शं सविडङ्गं गुडत्वचम् । मेघाक्षच्छ-
दबीजश्च चविकश्वैलकं तथा ॥ २७४ ॥
गुडूचीत्रिवृतादन्ती वचा च चवि-
कास्तथा । बलापलाशशिशुश्च कुंकुमं
वृद्धदारुकम् ॥ २७५ ॥ ग्रन्थिकं चि-
त्रकं वापि कलिङ्गं भद्रमुस्तकम् ।
वृहत्पत्रं पृथुलिकां काकजंघापुनर्न-
वाम् ॥ २७६ ॥ संचूर्ण्य चूर्णमादाय
गगनं द्विगुणं मतम् । रसायनविधे-
र्युक्तं सर्वोपद्रवनाशनम् ॥ २७७ ॥
मन्दाग्निग्रहणीदोषाः कफपित्तभवा-
श्च ये । भस्मत्वं यान्ति वै क्षिप्रं
काष्ठभङ्गो यथाग्निना ॥ २७८ ॥

अथ कफपित्तको नष्ट करनेके लिये और रसायन
लिखते हैं । यह श्रेष्ठ रसायन मनुष्योंकी सर्वप्रकारकी
अरुचिको सदैव दूर करती है । सुलैठी, पिण्डखजूर,
धानियाँ, जीरा, कालाजीरा, सोंठ, मिरच, पीपल,

वकरीका घृत और मिश्री ये प्रत्येक दो दो पल, तथा
पित्तपापडा, अगस्तिया, तालीशपत्र, वायविडंग,
दालचीनी, नागरमोथा, वहेहेके पत्ते और बीज, चव्य,
इलायची, गिलोय, निसोत, दन्ती, चव्य, वच, खिरैटी,
ढाकके बीज, सहिजनेकी जड़, केशद, विवारा, पीपला-
मूल, चीता, इन्द्रजौ, भद्रमोथा, लोध, हिंगुपत्री,
काकजंघा और पुनर्नवा इन प्रत्येक औषधियोंका चूर्ण
करके एक एक तोला और अभ्रककी भस्म २ तोले
लेकर सबको एकत्र खरल करके एक चिकने बासनमें
भरकर रखदेवे । इस रसायनको विधिपूर्वक सेवन
करनेसे सम्पूर्ण उपद्रव नष्ट होते हैं । तथा कफपित्तसे
उत्पन्न हुई मन्दाग्नि और ग्रहणी आदि विकार इस
प्रकार शीघ्रही भस्म होजाते हैं, जिसप्रकार अग्नि
द्वारा काठके टुकड़े भस्म होजाते हैं ॥ २७२-२७८ ॥

आमवातादिरोगोंपर दिव्यरसायन ।

तत्सिद्धं सिद्धनाथेन निर्मितं सत्व-
हेतुना । आमवातादिनाशाय लि-
ख्यते चाधुनेरितम् ॥ २७९ ॥ धा-
न्यनागरवैडङ्गं गुडूचीजीरकद्वयम् ।
पलाशबीजं कौलश्च पिप्पलीमुस्त-
कन्तथा ॥ २८० ॥ त्रिवृच्च त्रिफला
दन्ती एलकं वृहतीद्वयम् । चवि-
काग्रन्थिकाचित्रं सवचं वृद्धदारुकम्
॥ २८१ ॥ पञ्चायसः पलानाश्च प्रत्येकं
तद्द्विकार्षिकम् । आमवातघ्नचूर्णश्च
यथाविधि निषेवितम् ॥ २८२ ॥

श्रीसिद्धनाथने प्राणियोंके बलकी रक्षाके लिये जो
सिद्धरसायन कही है वह ही आमवातरोगको नष्ट
करनेके लिये यहाँ लिखते हैं । धनियाँ, सोंठ, वाय-
विडंग, गिलोय, जीरा, कालाजीरा, ढाकके बीज,
वेर, पीपल, नागरमोथा, निसोत, त्रिफला, दन्ती,
इलायची, कटेरी, बड़ी कटेरी, चव्य, पीपलामूल,
चीता, वच और विवारा ये प्रत्येक औषधि दो दो
तोले और पचलोहका चूर्ण ५ पल देवे । इन सबका
एकत्र चूर्ण करके यथाविधि सेवन करनेसे आमवात-
रोग नष्ट होता है ॥ २७९-२८२ ॥

श्वासादि व्याधियोंपर रसायन ।

शिरःशूलमुखश्वासकफपित्तापनुत्तये ।
लिख्यते चाधुना दिव्यं रसायन-
मनुत्तमम् ॥ २८३ ॥ शर्करामधुकं द्रा-
क्षा मुसली त्रायमाणकम् । वासा
गुडूची कालिङ्गं व्योषश्च त्रिफला
त्रिवृत् ॥ २८४ ॥ दन्ती कृमिहरं
चूर्णं वृद्धदारं पलोन्मिमतम् । सुदुपाके
विनिःक्षिप्तं क्षितपाकमनाकृति ॥
सेवितं हरते नित्यं रक्तपित्तं सुदारु-
णम् ॥ २८५ ॥

अब शिरःशूल, मुखरोग, श्वास और कफ पित्तको नष्ट करनेवाली यहां अनुत्तम दिव्यरसायन लिखतेहैं मिश्री, मुलैठी, दाख, मुसली, त्रायमाण, अडूसा, गिलोय, इन्द्रजौ, त्रिकुटा, त्रिफला, निसोत, दन्ती, वायविडंग और विधारा प्रत्येक औषधिको चार चार तोले लेकर सबका एकत्र चूर्ण करके उपर्युक्त लोह-रसायनमें डालकर मंद मन्द अग्निसे पकाकर उतार लेवे । इस रसायनको प्रतिदिन सेवन करनेसे दारुण रक्तपित्तरोग नष्ट होता है ॥ २८३-२८५ ॥

वातरक्तादिरोगोंपर रसायन ।

वातरक्ते महाकुष्ठे जङ्घोर्वोः स्तब्धतां
गने । सर्वाङ्गके तथा वाते क्रियमाणं
रसायनम् ॥ २८६ ॥ अश्रुकेन समं
गन्धं नवनीतामलच्छवि । मूर्च्छितश्च
तथा सूतं त्रिकटुत्रिफला वचा ॥ २८७ ॥
विडङ्गं जीरके द्वे च पलाशं बीजमै-
लकम् । वृद्धदारुत्वचं कन्दं सविडङ्गं
सचित्रकम् ॥ २८८ ॥ श्यामाकं शिश्रु-
दन्ती च त्रिवृतावर्गदूषिका ॥ प्रत्येकं
कार्पिकं मात्रं पाके खरतरे क्षिपे-
त् ॥ २८९ ॥

वातरक्त, महाकुष्ठ, जंघा और ऊरुओंकी स्तब्ध-तामें और सर्वाङ्गवात एवं सब प्रकारके वातरोगोंपर

यह रसायन कहते हैं । अश्रुक १ भाग, नवनीतके समान कांतिवाला शुद्ध गन्धक १ भाग और मूर्च्छित-तपारा (रस सिन्दूर) १ भाग, तथा सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, वच, वायविडंग, जीरा, कालाजीरा, ढाकके बीज, इलायची, विधारे की छाल, जिमीकन्द, वायविडंग, चीता, सारिवा, सहिजना, दन्ती, निसोत और वर्गादूपिका, ये प्रत्येक औषधि एक २ तोला लेकर सबका एकत्र चूर्ण करके उपर्युक्त लोह-रसायनमें मिलाकर खरपाक बनाकरके उतार लेवे । यह उत्तम रसायन है ॥ २८६-२८९ ॥

प्लीहादिरोगोंपर रसायन ।

प्लीहोदरं यकृद्गुल्मं शस्त्रक्षाराग्निभि-
र्विना । विनाशाय प्रयोज्यानि चूर्णा-
नीमानि देहिनाम् ॥ २९० ॥ कन्दं
कापालिका चव्यं विडङ्गं सबृहदलम् ।
शरपुंखा च पाठा च चित्रकं समहौ-
षधम् ॥ २९१ ॥ एषान्तु पलिकां मा-
त्रां क्षिपेच्छोहरसायने । लवणानि च
सर्वाणि सक्षारं वृद्धदारकम् ॥ २९२ ॥
दीप्यकश्च प्रयुञ्जीत पाकार्थमुभयासु-
री । प्लीहोदरविनाशाय द्वे पल च
पृथक् पृथक् ॥ मानेन खण्डकर्णेन
सूरणेनाधिकं पुनः ॥ २९३ ॥

शस्त्र, क्षार और अग्नि के विना प्लीहा, उदररोग, यकृत और गुल्म रोगको नष्ट करनेके लिये मनुष्योंको औषधियां चूर्ण करके प्रयोग करनी चाहियें । कापाली कन्द, चव्य, वायविडंग, मानकन्द, सरफोका, पाठ, चीता और सोंठ ये प्रत्येक औषधि चार चार तोले लेकर चूर्ण बनाकर उपर्युक्त लोह-रसायनमें डाल देवे तथा पाँचों प्रकारके नमक, जवाखार, विधारा, अजमोद, हरड, देवदार एवं पाकके लिये दोनों प्रकारकी सुरा, मानकन्द और खण्डकर्ण ये प्रत्येक आठ आठ तोले और जिमीकन्द १६ तोले लेकर सबको उत्तम प्रकारसे कूट पीसकर प्लीहा और उदररोगको नष्ट करनेके लिये रोगीको सेवन करावे ॥ २९० ॥ २९१ ॥ १९२ ॥ २९३ ॥

राजयक्ष्मापर रसायन ।

राजयक्ष्माणि श्वासे च कासे रक्तो-
ल्वणे हितम् । महौषधं सतालीशं
काकणं नागकेशरम् ॥ २९४ ॥ जीव-
न्तिमभयां मृद्धीं सर्वाभ्यो द्विगुणां
तथा । शर्कराश्च क्षिपेत्तत्र गुडूची-
सत्त्वमेव च ॥ २९५ ॥

राजयक्ष्मा, श्वास, खाँसी और रक्तकी उल्वणता-
वाले रोगोंमें सोंठ, तालीशपत्र, कूठ, नागकेशर,
जीवती, हरड और दाख ये प्रत्येक औषधि समान-
भाग और सबसे दुगुणी मिश्री एव गिलोयका सत्त
लेकर सबको एकत्र मर्दन करके सेवन करे २९४ ॥ २९५

वातजग्रहणीरोगपर रसायन ।

त्रिफलायाः प्रकुर्वीत प्रत्येकं पलस-
प्तकम् । वारिण्यष्टगुणे पत्तवा पञ्चभा-
गेन शेषयेत् ॥ २९६ ॥ षट्शरावास्तु
दुग्धस्य हविषः पलपञ्चकम् । पुटिता-
दायसः पञ्च शुद्धाभ्रस्य पलद्वयम् २९७ ॥
विडङ्गं त्रिफला जीरं द्वयं त्रिकटुचू-
र्णितम् । लोहचूर्णं समं ग्राह्यं गुणवृद्धं
ततः पचेत् । ग्रहणीगदमत्युग्रं हन्त्ये-
तद्वातसम्भवम् ॥ २९८ ॥

त्रिफलेकी प्रत्येक औषधि सात सात पल लेकर
अठगुने जलमें पकावे । जब पकते पकते जल पाँचवा
भाग वाकी रह जाय तब उतार कर छानलेवे । फिर
इस छने हुए काथमें दूध ४८ पल, घी ५ पल, लोहभस्म
पाँच पल और शुद्ध अभ्रक दो पल तथा वायविडग,
त्रिफला, जीरा, कालाजीरा और त्रिकुटा इन
प्रत्येकका चूर्ण लोहेके चूर्णके समानभाग क्रमसे बढा-
कर लेवे । फिर सबको एकत्र करके यथाविधिसे
पकावे । यह उत्तम रसायन-अत्यन्त उग्र वातज
संग्रहणीको दूर करती है ॥ २९६ ॥ २९७ ॥ २९८ ॥

पित्तजग्रहणीपर रसायन ।

विभीतकाभयाधात्री प्रत्येकं तु पला-
ष्टकम् । वारिण्यष्टगुणे साध्यं षडंगे-

नादतारिते ॥ २९९ ॥ अयःपलानि
पञ्चैव पयसोऽष्टौ शरावकान् । सर्पि-
षो दशपलान्यत्र दद्याल्लोहं विपाच-
येत् ॥ ३०० ॥ त्रिकटुत्रिफलाचूर्णं प्र-
त्येकं तु द्विकार्षिकम् । विडङ्गं भद्र-
मुस्तश्च जीरकं द्वयमेव च ॥ ३०१ ॥
पृथगर्धपलं ग्राह्यं कुय्यात्पाकन्तु म-
ध्यमम् । पित्तिके ग्रहणीरोगे योजये-
न्मतिमान् भिषक् ॥ ३०२ ॥

वहेडा, हरड आर आमले ये प्रत्येक औषधि आठ
आठ पल लकर अठगुणे जलमें पकावे । जब पकते
पकते छटा भाग जल वाकी रहजाय तब उतारकर
छान लेवे । फिर इस छनेहुए काथमें लोहेकी भस्म
पांच पल, दूध एक आठक और घी दश पल इन
सबको एकत्र करके उत्तम विधिसे लोहेको पकावे ।
फिर त्रिकुटा और त्रिफला इन प्रत्येक औषधियोंका
चूर्ण दो दो तोले तथा वायविडंग, नागरमोथा, जीरा
और कालाजीरा ये प्रत्येक औषधि दो दो तोले लेकर
सबको एकत्र चूर्ण करके उपर्युक्त पाकमें मिलाकर
मध्यम पाक करे । बुद्धिमान् वैद्य उत्तमरसायनको
पित्तजनित ग्रहणीरोगमें प्रयोग करे ॥ २९९-३०२ ॥

कफजग्रहणीपर रसायन ।

प्रत्येकं षट्पलं धात्री शिवा वैभीत-
कत्वचम् । उदकानां शरावैस्तु षड्-
विंशत्या विपाचयेत् ॥ ३०३ ॥ पञ्च-
भागावशिष्टेन लोहं पञ्चपलानि च ।
तावदत्त्वा दधि तस्मिन् खरपाकं वि-
पाचयेत् ॥ ३०४ ॥ त्रिकटुत्रिफलाव-
द्विविडङ्गं भद्रमुस्तकम् । चूर्णं लोह-
समं चात्र प्रक्षिपेदवतारिते ॥ श्ले-
ष्मिकं ग्रहणीदोषं हन्यादेतद्रसाय-
नम् ॥ ३०५ ॥

आमले, हरड और वहेडेका वकल ये प्रत्येक
औषधि छः छः पल लकर ३ आठक, ८ कुडव जलमें
पकावे । जब पकते पकते जल पांचवाँ भाग वाकी

रहजाय तव उतारकर छान लेवे । फिर उस काथमें लोहेकी भस्म पांच पल, और दही पांच पल डालकर यथाविधि लोहेका खरपाक करे फिर उसको उतारकर उसमें त्रिकुटा, त्रिफला, चीता, वायविडग और नागरमोथा इनका चूर्ण लोहेके चूर्णके समान भाग मिला कर एक चिकने वासनमें भरकर रख देवे । यह दिव्यरसायन कफजग्रहणीरोगको नष्ट करता है ॥३०३-३०५॥

वातपैतिकग्रहणीपर रसायन ।

लोहं पूर्वं पुटेच्छुद्धं गृहीत्वा पलपञ्चक-
म् । पुनर्नवावरीमूलं त्रिफलापुटितं पुनः
॥ ३०६ ॥ वराचतुर्गुणं लोहं पचेदष्ट-
गुणे जले । सप्तभागावशेषेण द्विश-
रावं पयः क्षिपेत् ॥ ३०७ ॥ शताव-
रीरसश्चापि लोहतुल्यं प्रदापयेत् ।
पलानि दश चाज्यस्य मृदुपाकेऽवता-
रिते ॥ ३०८ ॥ द्विजीरकं विडङ्गश्च
पलाशबीजमेव च । त्र्यूषणं त्रिफला-
चव्यं चूर्णमेषां पयःसमम् ॥ ३०९ ॥

प्रथम शुद्ध लोहेको लेकर पुनर्नवा, शतावर और त्रिफला इनके रसके द्वारा पुट देवे । फिर इसप्रकार भस्म किया हुआ लोहा पांच पल लेवे । पश्चात् लोहेसे चौगुना त्रिफला लेकर उसको अठगुने जलमें पकावे । जब पकते पकते जल सातवां भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छान लेवे । फिर इस छनेहुए त्रिफलेके काथमें १२८ तोले दूध, शतावरका स्वरस पांचपल और घृत दश १० पल डालकर मन्द मन्द अग्निसे मृदुपाक करके उतार लेवे फिर उसमें कालाजीरा, जीरा, वायविडग, ढाकके बीज, सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आमले और चव्य इनका चूर्ण दूधके समान मिलाकर एक चिकने वासनमें भरकर रखदेव । यह रसायन वातपित्त जनित ग्रहणीको दूर करती है ॥ ३०६-३०९॥

वातकफजग्रहणीपर रसायन ।

अष्टादशपलान्यत्र त्रिफलाया वि-
पाचयेत् । सलिले द्व्याढके चास्मि-

त्रवभागावशेषितम् ॥ ३१० ॥ विप-
चेत्पूर्ववद्लोहं पुटितं वक्ष्यमाणकैः ।
वरायाः केशराजस्य चार्द्रकस्य
रसेन च ॥ ३११ ॥ एतत्पञ्चपलं ग्राह्यं
सर्पिर्दशपलानि च । शतावरीरस-
स्याष्टौ नारिकेलोदकस्य च ॥ ३१२ ॥
पलाद्धं मरिचं कृष्णा नागरं पलस-
म्मितम् । षड्विंशमाषकं चूर्णं त्रि-
फलायाः प्रकल्पयेत् ॥ ३१३ ॥ त्रिच-
त्वारिंशतामाषैरविकं चूर्णितं पलम् ।
चित्रकस्य विडङ्गस्य पचेत्पाक-
खरं ततः । वातश्लेष्मोत्तरे चैव
कुक्षिरोगे तथा हितम् ॥ ३१४ ॥

अठारह १८ पल त्रिफला लेकर दो आठक जलमें पकावे । जब पकते पकते जल नववां भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छानलेवे । पश्चात् इस काथमें त्रिफला, कुकुरभांगरा और अदरखक रसके द्वारा मारण कियाहुआ लोहा पांच पल, घी दश पल, शतावरका रस आठपल, नारियलका जल आठपल, काली मिरच और पीपल ये प्रत्येक दो २ तोले, तथा सोंठ चार तोले, त्रिफलेका चूर्ण २६ मासे, आकका चूर्ण ४३ मासे, चीतेका चूर्ण और वायविडङ्गका चूर्ण एक २ पल इन सबको मिलाकर पूर्वाक्विधिसे खरपाक करे । यह औषध-वातकफजरागों और कुक्षिरोगोंमें अतीव हितकारी है ॥ ३१०-३१४ ॥

पित्तकफजग्रहणीपर रसायन ।

मूर्च्छितं पुटितं शुद्धमायसः पलप-
ञ्चकम् । शतावरीरसे सम्यक् पुटितं
पञ्चधा पुनः ॥ ३१५ ॥ अष्टौ पलानि
गृहीयात्त्रिफलायाः पृथक् पृथक् ।
सलिलस्यार्मणे पक्ता पादशिष्टेऽव-
तारिते ॥ ३१६ ॥ द्वात्रिंशच्च पला-
न्यत्र सर्पिर्दशैव तु । मध्यपाकं
ततः पक्ता चैषां कर्षद्वयं पृथक् ॥ ३१७ ॥
त्रिकटुं त्रिफलां वाह्निं विडङ्गं भद्रमु-

स्तकम् । पलाशस्य च बीजानि क्षि-
प्त्वा कुय्याद्रसायनम् ॥ पित्तश्लेष्मा-
धिकश्चैव निहन्याद्ग्रहणीगदम् ॥३१८॥

मूर्च्छित और पुटित ऐसे शुद्ध लाहको पांचपल लेकर गतावरके रसमें प्रत्येक बार खरल करके पांचवार पुट देवे । फिर त्रिफलेकी प्रत्येक औषधि आठ आठ पल लेकर एक अर्मण जलमें पकावे । जब पकते पकते जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उतारकर छानलेवे । फिर इस छने हुए त्रिफलेके ३२ पल काथमे उपर्युक्त लोहेका चूर्ण और अठारह पल घृत डालकर मध्यमताक करे । फिर इसमें सोठ, मिरच, पीपल, हरड़, बहेडा, आमला, चीता, वाय-विडंग, नागरमोथा आर ढाकके बीज इन प्रत्येक औषधिका चूर्ण दो दो तोले डालदेवे । यह उत्तम रसायन-पित्तकफजनित ग्रहणीको तत्काल दूर करती है ॥ ३१५ ॥ ३१६ ॥ ३१७ ॥ ३१८ ॥

लोहाश्रक ।

आज्यं चतुष्पलं शुद्धं घनं वस्त्रान्त-
विसृतम् । क्षुद्राद्रारिष्टवृश्चीक मधूक-
पर्णिकादिभिः ॥ ३१९ ॥ तिग्मांशुक-
रसं पक्वं पुटिताश्रं चतुष्पलम् । प्रस्था-
र्द्धं पयसो दद्यान्नारिकेलोदकस्य च
॥३२०॥ पचेत्पाकविधानज्ञो वह्निना
मृदुना शनैः । त्रिफलात्रिकटुवह्निर्वि-
डङ्ग जीरकद्रयम् ॥३२१॥ - जातीफलं
जातिकोषं लवङ्गं भद्रमुस्तकम् ।
कंकोलकश्च संचूर्ण्यं शाणमात्रं क्षिपेत्
पृथक् ॥ ३२२ ॥ पाकं ज्ञात्वा समु-
द्धृत्य भ्रामराष्टपलान्वितम् । रक्तका-
दिविधानेन खादेन्माषाष्टकं पुनः ॥
॥३२३॥ सर्वव्याधिविनिर्मुक्तो जीवेद्द-
र्षशतं सुखी । नागार्जुनेन रचितं रसा-
ख्यमिदमुत्तमम् ॥ विनापि परिहारा-
द्यैर्लोहोदितफलप्रदम् ॥ ३२४ ॥

वस्त्रमें छनाहुआ और अग्निसे संतप्त करके शुद्ध किया हुआ गाढा घृत चारपल तथा कटेरी, अदरख, नीम, महुआ, कुम्भेर और आकके रसके द्वारा पुट किया हुआ अश्रक चारपल, दूध ३२ तोले और नारियलका जल ३२ तोले इन सबको एकत्र मिलाकर पाकको जाननेवाला वैद्य विधिपूर्वक मंद मंद अग्निसे पकाव । पश्चात् त्रिफला, त्रिकुटा, चीता, वायविडंग, जीरा, कालाजीरा, जायफल, जावित्री, लौंग, नागर-मोथा और शीतलचीनी इन प्रत्येक औषधियोंका चूर्ण चार चार मासे मिलादेवे । पाकको सिद्ध हुआ जानकर उसको उतार कर स्वयं शीतल होजाने पर उसमें आठ पल शहद मिलाकर एक चिकने वासनमें भरकर रखदेवे । इसमें प्रातिदिन एक २ रत्ती के क्रमसे मात्रा बढ़ाकर सेवन करताहुआ आठमा-सेतक सेवन करे । इसके प्रसादसे मनुष्य सर्वरोगों-से रहित होकर सौवर्षतक जाता रहताहै । नागार्जुन ऋषिने यह उत्तमरसायन निर्माण किया है । यह आहार विहारके पथ्यके बिना ही लोहोक्तफलको प्रदान करती है ॥ ३१९—३२४ ॥

खर्पराख्यरसायन ।

शङ्खस्य नाभिचूर्णश्च सुराक्षारश्च सै-
न्धवम् । टङ्गणश्च खटीशुभ्रा वराटो-
भयमाक्षिकम् ॥ ३२५ ॥ शणं गुडश्च
यशदं पूर्वोक्तं शुभताम्रकम् । तुर-
टीधूमसारश्च नवसारं निशा सिता
॥ ३२६ ॥ सर्वं समं गृहीत्वा तु ह्ये-
काविंशतिभिर्दिनैः । जलोषितन्तु त-
त्सर्वं स्थापयेद्विधिविद्विषक् ॥३२७॥
तत उद्धृत्य संकुट्य शिलायां पेषये-
न्नरः । पिष्ट्वा पिष्ट्वा पुनः पिष्ट्वा स्नि-
ग्धां पिष्टिं प्रकारयेत् ॥ ३२८ ॥ श-
रेषु ताश्च संलेप्य कोष्ठिकायन्त्रगे प-
चेत् । तीव्राग्निना दिनैकेन पक्वं पक्वं
समाहरेत् ॥ ३२९ ॥ एतद्रसायनं
दिव्यं खर्पराख्यं महोत्तमम् । सर्वने-
त्रामयान् हन्ति विषमञ्जरनाश-
नम् ॥ ३३० ॥

शंखकी नाभिका चर्ण, सोराखार, सैधानमक, सुहागा, खडियामिट्टी, सेलखडी, कंठी, सोनामाखी, रूपामाखी, गण, गुड, जस्त, पूर्वोक्तविधिसे भस्म किया हुआ तांबा, गोपीचंदन, धूमसार, नवसादर, हलदी और मिश्री इन सब औषधियोंको समान भाग लेकर एकत्र पीसकर इक्कीस दिनतक जलमें भिजोकर रख देवे । फिर उसमेंसे निकाल कर पत्थरपर कूट कर वारंवार पीसे । पीसते २ खूब चिकनी पिट्टी करलेवे । फिर उसको सकोरोंपर लेप करके कोष्ठिक यंत्रमें पकावे । एक २ दिनतक तीव्र अग्निसे पकाकर एक उत्तमपात्रमें करके रखदेवे । यह उत्तम खर्पराह्य दिव्यरसायन सर्वप्रकारके नेत्ररोग और विषम-ज्वरको नष्ट करती रहै ॥ ३२५-३३० ॥

शिरोवस्ति प्रकार ।

हनुमन्यास्तम्भादित-शिरःकम्प-
भ्रमशङ्खतोदश्रवण-दशनशूलावभेद-
शयन-नयनेन्द्रलुप्तघ्राणादक्ष्वेडवा-
धिर्यपीनस-पूररक्तप्रतिनाहघ्राणा-
क्षिप्रीवातिमिरामिप्यन्दमूर्द्धहता-
नाम् शिरोवस्तिः प्रधानः । अना-
याश्रये पीठे स्याथयित्वा पादाभ्यङ्गं
कार्यं पुरा भुक्तवतां वस्तिचम्म गव्यं
माहिषं वा कषायमष्टांगुलोच्छ्रितं
द्विमुखं शिरःप्रमाणमादाय तं नि-
र्वलीकं कृत्या ललाटे सूत्रेण बद्धा ।
सुखोष्णाम्बुपरिक्रिन्नमाषपिष्टानुलि-
प्तमपरिस्त्रावीकृत्य ततोऽस्य यथा-
व्याधिदोषहृदितभेषजसिद्धमन्यतरं
स्नेहमासिञ्चेत् । केशभूमेरुपर्यष्टां-
गुलं तावच्च धार्यं यावत्कर्णमुख-
नासाभ्यः स्नेहस्रावो वेदनोपशमो
वान भवेत् विशेषतस्तु वातविका-
रेष्वष्टादशमात्रा सहस्राणि पित्त
रक्तजेष्वष्टौ पट् कफजेषु सहस्रमारौ-
ग्यं प्रति सर्वकालप्रतिषिद्धः ।

हनुस्तम्भ, मन्यास्तम्भ, आदित, गिरःकम्प, भ्रम, शंखतोद, कर्णगूल, दंतगूल, अवभेद, निद्राभंग, नेत्र-रोग, इन्द्रलुप्त, नासारोग, कर्णक्ष्वेड, वधिरता, पीनस, पूररक्त, प्रतिनाह, नासिका, नेत्र, ग्रीवा, तिमिर, अभि-प्यन्द और अन्यान्य समस्त ऊर्ध्वजरोगसे पीडित मनुष्योको शिरोवस्ति प्रदान करनी उत्तम है । प्रथम रोगीको आश्रयरहित आसन (पाटा, चौकी आदि) पर बैठाकर पहले पात्रोंमें तेलको मर्दन करे । पत्रात् आठ अंगुल ऊँचा और शिरकी बराबर ऐसा गाय या भैंसका चमड़ा लेकर उसकी टोपीसी बनाकर दोमु ख करके उसकी सिलवट निकालकर मस्तकपर डोरे से बाँध देवे । फिर उडदोंके चूनको गरमजलमें सानकर उसकी संधियोंमें लेप करके अच्छे प्रकारसे बंद कर दें । फिर यथारोग और यथादोषानुसार औषधियोंके द्वारा तेलको सिद्ध करके उस तेलको चमड़ेके भीतर आठ अंगुलतक भरदेवे । जबतक कर्ण, मुख और नासासे स्नेह नहा सकेन लगे अथवा जबतक वेदना शांत नहीं हो तबतक बराबर धारण करे । विशेषकर वातके रोगोंमें १८०० मात्रा, पित्त और रक्तके रोगियोंको आठहजार मात्रा, कफके रोगाम छः हजार मात्रा और निरोगी मनुष्यको १००० परिमाण मात्रातक तैलको धारण करना चाहिये ।

प्रयोज्यस्तु शिरोवस्तिस्थहानि प-
श्चाहानि सप्तदिनानि वा ततः पा-
नीयन्तु स्नेहं विमोच्य वस्ति शिरः-
स्कन्धग्रीवापृष्ठललाटादीननुसुखं पा-
णिभ्यां मर्दयेत् । ततः सुखोष्णा-
म्बुपरिसिक्तगात्रं शालिपिष्टकादी-
नां जाङ्गलानुपरसेन दाडिमाम्लैर्मा-
त्रां भोजयेत् । सर्वेन्द्रियाणां हि
बलं केशानां दृढमूलताम् । करो-
ति वाग्विशुद्धिश्च सूक्ष्मं तैलांबुसे-
चनात् ॥ ३३१ ॥

शिरोवस्ति तीन दिनतक या पाँच दिनतक अथवा सात दिन तक करे । फिर वस्तिको खोलकर, तेलको ग्रहण कर और चमड़ेको खोलकर रखदेवे ।

तथा शिर, स्कन्ध, ग्रीवा, पृष्ठ और मस्तक आदिको हाथोंसे मर्दन करे । तत्पश्चात् मन्दोष्ण जलसे शरीरको परियेचन करके शालिचावल, पकान्न, जांगल और अनूपदेशके जीवोका मांसरस, अनारकी खटाई इत्यादि पदार्थोंको मात्रानुसार भक्षण करे । शिरपर तैलको अथवा जलको सेचन करनेमे सम्पूर्ण इन्द्रियोंमे बल और बालोकी जड दृढ होती है तथा वाणी शुद्ध होती है ॥ ३३१ ॥

मर्मनिर्देश ।

सप्तोत्तरं मर्मशतम् । तानि मर्माणि पञ्चात्मकानि । तद्यथा-मांस-मर्माणि, शिरामर्माणि, स्नायुमर्माणि, अस्थिमर्माणि, सन्धिमर्माणि चेति । तत्रैकादशमांसमर्माणि, एकचत्वारिंशत् शिरामर्माणि । सप्तविंशतिः स्नायुमर्माणि, अष्टावस्थिमर्माणि, त्रिंशतिः सन्धिमर्माणि, तदेतत् सप्तोत्तरं मर्मशतम् । तेषामेकादशैकस्मिन् सकृन्धि भवन्ति । एतेनेतरसक्थिवाहू च विख्यातौ । उदरोरसोर्द्वादश चतुर्दशपृष्ठे ग्रीवां प्रत्यूर्ध्वं सप्तविंशत् ।

सम्पूर्ण मर्मोंकी संख्या एकसौ सात १०७ है और इनके पांच भेद हैं, जैसे-मांसमर्म, शिरामर्म, स्नायुमर्म, अस्थिमर्म और संधिमर्म । इनमें मांसमर्म ग्यारह हैं, शिरामर्म इकतालिस हैं। स्नायुमर्म २७ हैं, अस्थिमर्म आठ और संधिमर्म २० हैं इस प्रकार सब मर्म एकसौ सात हैं। इनमेंसे ग्यारह मर्म एक सक्थिमें होते हैं । इसीप्रकार दूसरी सक्थि और बांहोंमें जानने । इस तरहसे चारों हाथों पावोंमें चौबालीस मर्म हैं । उदर और वक्षस्थलमें बारह, पीठमें चौदह और ग्रीवाके उपर ३७ सैतीस हैं ।

सक्थिमम ।

तत्र सकृथिमर्माणि क्षिप्रतलहृदयकूर्चकूर्चशिरो-गुल्फेन्द्रवस्तिजान्वाण्युर्वीलोहिताक्षाणि विटपञ्चेति । एतेनेतरसक्थिव्याख्यातम् ।

क्षिप्र, तल, हृदय, कूच, कूर्चशिर, गुल्फ, इन्द्रवस्ति, जानु, आणि, उर्वी, लोहिताक्ष और विटप ये ग्यारह मर्म एक सक्थिमें होते हैं । इसीप्रकार दूसरी सक्थि पांवकी सांतलमें जानने ॥

उदर और उरोगतमर्म ।

उदरोरसस्तु गुदवस्तिनाभिहृदयस्तनमूलस्तनरोहितापलापापस्तम्भौ चेति ।

गुदा, वस्ति, नाभि, हृदय, स्तनमूल, स्तनरोहित, अपलाप और अपस्तम्भ यह उदर और वक्षःस्थलके मर्मस्थान हैं ॥

पष्ठमम ।

पृष्ठमर्माणि तु कटिकनरुणकुकुन्दरनितम्बपार्श्वसन्धि-वृहत्कंसफलकान्यसौ चेति ।

कटीक, तरुण, कुकुन्दर, नितम्ब, पार्श्वसन्धि, वृहती, अंसफुलक और स्कन्ध यह पीठके मर्मस्थान हैं ॥

बाहुमम ।

बाहुमर्माणि तु क्षिप्रतलहृदयकूर्चकूर्चशिरो-मणिवन्धेन्द्रवस्तिकूर्पराण्युर्वीलोहिताक्षाणि कक्षधरञ्चेति । एतेनेतरो बाहुर्व्याख्यातः ।

क्षिप्र, तल, हृदय, कूर्च, कूचशिर, मणिवन्ध, इन्द्रवस्ति, कूपर, आणि, उर्वी, लोहिताक्ष और कक्षधर ये बाहुमर्म हैं इसीप्रकार दूसरे बाहुके भी जानने चाहिये ॥

जत्रूर्ध्वमर्म ।

जत्रूर्ध्वं मर्माणि चतस्रो धमन्योऽष्टौ मातृका द्वे कृकाटिके द्वे विधुरे द्वौ कर्णौ द्वावपाङ्गौ द्वावावर्त्तौ द्वावुत्क्षेपौ द्वौ शङ्खावेका स्थपनी पञ्च सीमन्ताश्चत्वारिशृङ्गाटकान्येकोऽधिपतिरिति ।

चार धमनी, आठ मातृका, दो कृकाटिका, दो विधुर, दो फलक, दो अपाङ्ग, दो आवर्त्त, दो उत्क्षेप, दो शंख, एक स्थपनी, पाँच सीमन्त, चार शृंगाटक और एक अधिपति ये जशुस्थानके ऊपरके ३७ मर्म हैं ॥

मांसमर्म ।

तत्र तलहृदयेन्द्रवस्तिगुदस्तनरोहितानि मांसमर्माणि ।

तल, हृदय, इन्द्रवस्ति, गुदा, स्तन और रोहित ये मांसमर्म हैं ।

शिरामर्म ।

नीलधमनीमातृकाशृङ्गाटकापाङ्गस्थपनीफणस्तनमूलापलापापस्तम्भहृदयनाभेपार्श्वसन्धिबृहतीलोहिताक्षोर्व्यः शिरामर्माणि ।

नील, धमनी, मातृका, शृङ्गाटक, अपाङ्ग, स्थपनी, फण, स्तनमूल, अपलाप, अपस्तम्भ, हृदय, नाभि, पार्श्वसंधि, बृहती, लोहिताक्ष और उर्वी ये शिरामर्म हैं ॥

स्नायुमर्म ।

आणिविटपकक्षधरकूर्चकूर्चशिरोवस्तिक्षिप्रांसविधुरोत्क्षेपः स्नायुमर्माणि ।

आणि, विटप, कक्षधर, कूर्च, कूर्चशिर, वस्ति, क्षिप्र, अंस, विधुर और उत्क्षेप ये स्नायुमर्म हैं ॥

अस्थिमर्म ।

कटिकतरुणानितम्बांसफलकशंखास्त्वस्थिमर्माणि ।

कटीक, तरुण, नितम्ब, अंस, फलक और शंख ये अस्थिमर्म हैं ॥

सन्धिर्मर्म ।

जालुकूर्परसीमन्ताधिपतिगुल्फमणिवन्धुकुन्दरावर्त्तकृकाटिकाश्चेति सन्धिर्मर्माणि ।

जालु, कूर्पर, सीमन्त, अधिपति, गुल्फ, मणिवन्ध, कुन्दर, आवर्त्त और कृकाटिका ये सन्धिर्मर्म हैं ॥

मर्मोंके पांच विकल्प ।

तान्येतानि पञ्चविकल्पानि मम्माणि भवन्ति । तद्यथा, सद्यःप्राणहराणि, कालान्तरप्राणहराणि, विशल्यघ्नानि, वैकल्यकराणि, रुजाकराणीति । तत्र सद्यःप्राणहराण्येकोनविंशतिः, कालान्तरप्राणहराणि त्रयस्त्रिंशत्, त्रीणि विशल्यघ्नानि, चतुश्चत्वारिंशद्वैकल्यकराणि, अष्टौ रुजाकराणीति ।

इन सम्पूर्ण मर्मोंके पांच विकल्प हैं इनमें एक सद्यःप्राणहर, कालान्तरप्राणहर, विशल्यघ्न, वैकल्यकर और रुजाकर । इनमें सद्यःप्राणनाशक १९ उन्नीस मर्म हैं । कालान्तरमे प्राणहारक ३३ तैतीस मर्म हैं । विशल्यघ्न तीन ३ हैं । वैकल्यकर ४४ चौवालीस हैं और आठ ८ रुजाकर हैं ॥

सद्यःप्राणनाशकमर्म ।

शृङ्गाटिकान्यधिपतिः शंखौ कण्ठशिरोगुदम् । हृदयं वस्तिनाभी च घ्नन्ति सद्यो हतानि वै ॥ ३३२ ॥

चार शृंगाटक, एक अधिपति, दो शंख, आठ कण्ठशिरा, एक गुदा, एक हृदय, एक वस्ति और एक नाभिगत ये उन्नीस १९ मर्म अभिघात होनेसे तत्काल प्राणोंको नष्ट करनेवाले हैं ॥ ३३२ ॥

कालान्तरप्राणहारकमर्म ।

वक्षोमर्माणि सीमन्ततलक्षिभ्रेन्द्रवस्तयः । कटीकतरुणे सन्धी बृहत्या ये च पार्श्वयोः ॥ नितम्बाविति चैतानि कालान्तरहराणि च ॥ ३३३ ॥

आठ वक्षःस्थलके मर्म, पांच सीमन्त, चार तलहृदय, चार क्षिप्र, चार इन्द्रवस्ति, दो कटी, तरुण, दो पार्श्वसंधि, दो बृहती और दो नितम्ब इसकारण सब मिलकर ये तैतीस मर्म कालान्तरमें प्राणोंको हरनेवाले हैं ॥ ३३३ ॥

विशल्यघ्नमर्म ।

उत्क्षेपौ स्थपनी चैव विशल्यघ्नानि
निर्दिशेत् ॥ ३३४ ॥

दो उत्क्षेप और एक स्थपनी ये तीन विशल्यघ्न
मर्म हैं ॥ ३३४ ॥

वैकल्यकरमर्म ।

लोहिताक्षाणि जानूर्वाः कूर्चा वि-
टपर्कूराः । कुकुन्दरे कक्षधरे विधुरे
सकृकाटिके ॥ ३३५ ॥ अंसांसफलका-
पांगा नीले मन्ये फणे तथा । वैकल्य-
करणान्याहुरावर्त्तौ द्वौ तथैव च ३३६

चार लोहिताक्ष, चार आणि, दो जानु, चार
उर्वा, चार कूर्चा, दो विटप, दो कूर्पर, दो कुकुन्दर,
२ कक्षधर, दो विधुर, दो कृकाटक, दो अंस, दो
अंसफलक, दो अपाग, दो नीले, दो मन्या, दो फणी
और दो आवर्त्त ये चौबालीस मर्म वैकल्यकर हैं
अर्थात् इनमें चोट आदिके लगनेसे विकलता होती
है ॥ ३३५ ॥ ३३६ ॥

गुल्फौ द्वौ मणिवन्धौ द्वौ द्वे द्वे कूर्च-
शिरांसि च । रुजाकराणि जानीया-
दष्टावेतानि बुद्धिमान् ॥ ३३७ ॥

दो गुल्फ, दो मणिवन्ध, अलग २ दोनों हाथो और
दोनों पांवांकी कूर्चशिरायें इसप्रकार ये आठ रुजाकर
मर्म हैं, अर्थात् इनमें चोट आदिके लगनेसे घोर
पीडा होती है ॥ ३३७ ॥

सद्यःप्राणहरं हन्ति साप्ताहाभ्यन्तरे
हितम् । कालान्तरहरं पक्षान्मासा-
द्वा हन्ति वै क्वचित् ॥ ३३८ ॥ यथा
चानुविशल्यघ्नं वैकल्यञ्च रुजाकरम् ।
पूर्वसुद्धृतशल्येन मृत्युदं ये रुजाकरे
॥ ३३९ ॥ विद्धमन्ते तु मर्मैतदन्यं
यच्चान्तरावकृत । कदाचिद्वैकल्यकरं
क्षिप्रं हन्याद्बहिश्च्युतम् ॥ ३४० ॥

सद्यःप्राणहरमर्म--सातदिनमें मनुष्यको मारदेते
हैं, कालान्तरप्राणहर एक पक्षमें अथवा एक महीनेमें
मनुष्यको मारदेते हैं । विशल्यघ्नमर्मके समीप
चोटके लगनेसे विकलता और पीडा होती है । विश-
ल्यघ्नमर्मसे शल्य निकालनेपर तत्काल मृत्यु होती
है, रुजाकरमर्म, अंतमें विधनेसे तथा इसीप्रकार
अन्यान्य मर्म अन्तमें विधनेसे मर्मोंके अन्तरकर्मों
को करते हैं । कभी क्षिप्र मर्म बाहरको खननेसे
विकलता करता है, अथवा मारदेता है ॥ ३३८ ॥
॥ ३३९ ॥ ३४० ॥

इन्द्रियार्थेषु संवित्तिर्मनोबुद्धिवि-
पर्ययः । रुजश्च तीव्रा विविधा भव-
न्त्यसुहरे हते ॥ ३४१ ॥

सद्यःप्राणहारकमर्मोंमें चोट लगनेसे इन्द्रियोंका
ज्ञान नष्ट होजाता है तथा मन और बुद्धिमें विपरीतता
होती है और विविधप्रकारकी तीव्र पीडा होती है
॥ ३४१ ॥

हते कालान्तरहरे ध्रुवो धातुक्षये नृ-
णाम् । ततो धातुक्षयाज्जन्तुर्वेदना-
भिश्च पीडयते ॥ ३४२ ॥ हते वैक-
ल्यजनने केवलं वैद्यनैपुणात् । शरी-
रक्षयमासाद्य विकलत्वमवाप्नु-
यात् ॥ ३४३ ॥

मनुष्योंके कालान्तरप्राणनाशक मर्मोंमें चोटके
लगनेपर धातुक्षय होता है । उस धातुक्षयकी पीडासे
पीडित होकर मनुष्य मृत्युको प्राप्त होता है । वैकल्य-
कारक मर्मोंमें चोटके लगनेपर कदाचित् वैद्यकी
चतुरतासे शरीर बचजाता है अन्यथा विकलताके
अधिक होनेसे शरीर नष्ट होजाता है ॥ ३४२ ॥
॥ ३४३ ॥

विशल्यघ्नेषु विज्ञेयं पूर्वोक्तं यच्च का-
रणम् ॥ ३४४ ॥

विशल्यघ्नमर्मोंमें जवतक उसमें शल्य अर्थात्
काँटा रहता है तवतक मनुष्य जीता रहता है और
शल्य निकालनेपर मरजाता है ॥ ३४४ ॥

रुजाकाराणि मर्माणि क्षतानि वि-
विधा रुजः । कुर्वति तानि वैकल्यं
कुर्वैद्यशगो यदि ॥ ३४५ ॥

रुजाकरमर्मांमे चोटके लगनेसे घावमें अनेकप्र-
कारकी घोर पीडा और विकलतादि अनेक यंत्रणायें
होती हैं । किन्तु ये पीडायें मूर्ख वैद्यके द्वारा चिकि-
त्सा करानेसे होती हैं ॥ ३४५ ॥

छेदभेदाभिघातेभ्यो दहनादारणा-
त्तथा । उपघातं विजानीयान्मर्माणां
तुल्यलक्षणम् ॥ ३४६ ॥

मर्मके निकट छेदन, भेदन, अभिघात, दहन,
दारण और उपघात आदिके होनेसे मर्मत्रिद्वके
लक्षणोंके समान लक्षण होते हैं ॥ ३४६ ॥

मर्माघातसे मृत्युका कारण ।

अग्निः सोमोऽनिलः सखं रजश्च
तम एव च । प्रायेण मर्मसु नृणां
भूतात्मा चावतिष्ठते ॥ अस्मान्म-
र्मस्वभिहता न जीवन्ति शरीरि-
णः ॥ ३४७ ॥

पित्त, कफ, वात, सत्त्व, रज, तम और भूतात्मा
ये सब प्रायः मनुष्योंके मर्मस्थानोमें रहते हैं, इसका-
रण मर्मोंमें चोट लगनेसे मनुष्य नहीं जीते हैं ३४७

छिन्नेषु पाणिचरणेषु शिरा नराणां
सङ्कोचमीयुरसृगल्पमतो निरेति ।
प्राप्याऽमितव्यसनसुग्रमतो मनुष्याः
संछिन्नशाखतरुवन्निधनं न यांति ३४८

मनुष्योंके हाथ और पांवोंके कटजानेपर नसे
सकुड जाती हैं, इसकारण अत्यन्त रुधिर नहीं बहता
है । यद्यपि पीडा अत्यन्त होती है, किंतु वह कटी
हुई वृक्षकी शाखाके समान नष्ट नहीं होते हैं ३४८ ॥

क्षिप्रेषु तत्र सतलेषु हतेषु चाग्रं गच्छ-
त्यसृग्बहुरुजं च करोति वायुः । एवं
विनाशमुपयांतिवह तत्र विद्धाः कि-
ञ्चलकपत्रमथनादिव पङ्कजानि ॥ ३४९ ॥

क्षिप्र और तलमर्मोंके कटजानेपर अत्यन्त रुधिर
बहता है और वायु अतीव पीडा करती है इसलिये इन
मर्मस्थानोमें चोट लगजानेरो मनुष्य मरजाते हैं, जि-
स प्रकार कमलकेशरके पत्तोंको मंथन करनेसे कमल
नष्ट होजाता है ॥ ३४९ ॥

मर्माण्यधिष्ठाय हि ये विकारा
मूर्च्छंति काये विविधा नराणाम् ।
प्रायेण ते कृच्छ्रतमा भवन्ति नरस्य
यत्नैरभिसव्यमानाः ॥ ३५० ॥

मर्मास्थानोमें जो अनेक प्रकारके विकार हांते हैं
उनकी पीडा मनुष्योंके सम्पूर्ण शरीरमें होती है । इस
कारण यत्नपूर्वक चिकित्सा करनेपर भी मनुष्यके
वे विकार प्रायः कृच्छ्रसाध्य होजाते हैं ॥ ३५० ॥

वातजरोगगणना ।

अशीतिर्वातजा रोगाः स्वरभेदो
विषादिकाम् । पादशूलं पाददाहं पा-
दयोर्भङ्गसुप्तते ॥ ३५१ ॥ गुल्फग्रहं
पिडिकार्तिर्जानुनोभेदनं तथा । ऊ-
रुस्तम्भोरुसादौ च पांगुल्यं गुल्फ-
गृध्रसी ॥ ३५२ ॥ शुद्धंशो शुद्धस्या-
त्तिराक्षेपी मुष्कयोरपि । शिरः-
स्तम्भो वङ्क्षणातिः श्रोणिभेदोऽथ
खञ्जता ॥ ३५३ ॥ उदावर्तः सविड्-
भेदः कुब्जतवं वायनं तथा । त्रिक-
षुष्ट्रह्रौ कुक्षौ वेष्टकौ पार्श्वभेदकः
॥ ३५४ ॥ हृद्भेदो हृद्ग्रहश्चैव हर्षभेदौ
च दक्षसः । ग्रीवास्तम्भो बाहुशौ-
षो मन्यास्तम्भश्च कम्पकृ ॥ ३५५ ॥
हृत्प्रहोष्ठश्यावौ च दन्तशैथिल्यभ-
ङ्गने । वाक्सङ्गो मूकता चैव शोष-
श्चास्य कषायता ॥ ३५६ ॥ रसाना-
भनभिज्ञतवं गन्धनाशोऽथ कर्णरुक् ।
उच्चैः श्रवणबाधिर्यमशब्दश्रवणं त-
था ॥ ३५७ ॥ वर्त्मनोः स्तंभसंको-
चौ तिमिरं नेत्रशूलिनम् । अक्षि-

भ्रुवोः स्फुरत्वश्च भेदः शङ्खललाटयोः
॥ ३५८ ॥ शिरोर्तिः केशविस्फो-
टोऽर्दिताक्षेपप्रदण्डकाः । एकसर्वाङ्ग-
रोगौ च स्तंभः पक्षवधः श्रमः ॥
॥ ३५९ ॥ जृम्भणश्च स्मितत्वश्च
प्रलापो स्वप्नवेपथुः । विश्वाचीरौ-
क्ष्यपारुष्यौ ग्लानिः श्यावारुणाभ-
ताः ॥ ३६० ॥

वातरोग अस्सी ८० प्रकारके होते हैं । उनके नाम इसप्रकार हैं । जैसे स्वरभेद, विपादिका, पादगूल, पाददाह, पादभंग, पादसुप्त, गुल्फग्रह, पिंडिका, ऊरुभेद, ऊरुस्तम्भ, ऊरुसाद, पंगुता, गुल्फ, गुप्त्रसी, गुदभ्रंग, गुदाकी पीडा, आक्षेप, अण्डशोथ अथवा अंडवृद्धि, शिरःस्तम्भ, वंक्षणकी पीडा, कटिभेद, खञ्जता, उदावर्त, विड्भेद, कुब्जता, वौतापन, त्रिकग्रह, पृष्ठग्रह, कुक्षिवेष्ट, पार्श्वमर्दक, हृदयभेद, हृद्ग्रह, दंतहर्ष, दंतभेद, वक्षभेद, ग्रीवास्तम्भ, बाहुशोप, मन्यास्तम्भ, कम्प, हनुग्रह, ओष्ठश्याव, दंतशैथिल्य, दंतभंजन, वाचालता, मूकता, मुखशोष, मुखमें कषायता अथवा विरसता, रसज्ञानका, नाश, सुगंध-दुर्गंधके ज्ञानका नाश, कर्णरोग, ऊँचेसे सुनना, वधिरता, कान विना ही शब्दोंके शब्दका सुनना, वर्मस्तम्भ, वर्मसंकोच, तिमिर, नेत्रशूल, नेत्रस्फुरण, भ्रूस्फुट, शंखभेद, शिरभेद, शिरोरोग, केशोमे स्फोटकोका होना, अर्दित, आक्षेप, दंडक, एकांगरोग, सर्वांगरोग, अंगस्तम्भ, पक्षाघात, श्रम, जंभाई, स्मितता, प्रलाप, निद्राभंग, स्वप्नोका दीखना, कंप, विश्वाची, रूक्षता, परुपता, ग्लानि, श्यावता और अरुणता ये वातजनितरोग हैं ॥ ३५१-३६० ॥

पित्तजनितरोगगणना ।

चत्वारिंत्पित्तजाश्च ओष्ठशोषोऽथ
धूमकः । अम्लको वमथुर्दाहो वि-
पाकः प्रबलोष्मता ॥ ३६१ ॥ अ-
न्तर्दाहोऽग्निसादश्च अतिस्वेदोऽग्नि-
गन्धता । अथैकदेशदरणं क्लेदो मां-
सासृजोरपि ॥ ३६२ ॥ त्वग्दाहो
रक्तपित्तश्च दारणं मांसमर्मणोः ।

कोठमण्डलविस्फोटा रक्तास्यं हरि-
तालता ॥ ३६३ ॥ हरिद्रागुलिका-
कारं चक्षुस्तृष्णा सकामला । ति-
क्तास्यता पूतिमुखमामगन्धि भवे-
त्तनु ॥ ३६४ ॥ तमःप्रवेशनं चास्य-
गुदमेढ्राक्षिपक्तयः । हरिद्रमूत्रता
वक्रजीवादानमृत्पिता ॥ ३६५ ॥

पित्तके चालीस रोग होते हैं । उनके नाम ये हैं । जैसे-ओष्ठशोप, धुयेंकी समान खट्टी वमन, दाह, विपाक (पकना), प्रबल उष्णता, अन्तर्दाह, अग्निसाद, अत्यंत स्वेद, स्राव, अग्निके समान शरीरमें गन्धका आना, शरीरके किसी एक प्रदेशका फटना, मांस और रुधिरमें क्लेदका होना, त्वचामे दाह, रक्तपित्त, मांस और मर्मोका फटना, लाल चकत्ते, मण्डल और विस्फोटक, मुखपर पीलापन, नेत्र गोल और हलदीके समान पीले, तृषा, कामला, मुखमे कडवापन, शरीरमें दुर्गंधका आना, शरीरमे आमके समान दुर्गन्धका होना, अन्धकारमें प्रवेश होना, मुख, गुदा, लिंग, नेत्र और मूत्र इन सबका पीला होना और भोजन एवं जलसे अतृप्तिता ये सब पित्तके रोग हैं ॥ ३६१-३६५ ॥

कफके बीस रोग ।

विंशतिः श्लेष्मजा तन्द्री तृप्तिनि-
द्राङ्गौरवम् । आलस्यं मुखमाधु-
र्यं स्तिमितत्वं मुखस्रवः ॥ ३६६ ॥
श्लेष्मोद्गारो मलाधिक्यो बलासो
धमनीचयः । उरःकण्ठप्रलेपौ च
गलगण्डोऽतिनिद्रता ॥ ३६७ ॥
श्वेताभो मूत्रबाहुल्यमुदरदः शीत-
वर्द्धिता । अमी ल्याताः समालोक्य
अष्टौ च गुणकर्मभिः ॥ ३६८ ॥ इत्य-
शीतिर्वातजाश्च चत्वारिंशच्च पित्त-
जाः । विंशतिः कथितं पूर्वैः श्लेष्म-
रोगोपदर्शनम् ॥ ३६९ ॥

अब कफके २० प्रकारके रोगोंको कहते हैं । तन्द्रा, तृप्ति, निद्रा, शरीरमें भारीपन, आलस्य,

मुखमें मधुरता, शरीर भीजं कपडेसे आच्छादितमा प्रतीत होना, मुखमेंसे पानीका गिरना, कफसहित उकारका आना, मलका अधिक आना, धमनियोंमें कफ सञ्चय रहना, हृदय और कंठमें कफसा लिहना रहना, गलगण्ड, अत्यंत निद्राका आना, शरीरका अथवा मूत्रका वर्ण सफेद होना और मूत्रका अधिक आना, उदर और मंदाग्नि ये कफके रोग हैं। आठों गुण कर्म्मोंके द्वारा जान कर ये ८० वातके रोग, ४० पित्तके रोग, २० कफके रोग पूर्व वैद्योंने कहे हैं ॥ ३६६-३६९ ॥

रसायनविधि ।

चिकित्सितं वातहरं पथ्यसाधनमौषधम् । प्रायश्चित्तप्रशमनं प्रकृतिस्थापनं हितम् ॥ ३७० ॥ यज्जराव्याधिविध्वांसि भेषजं तद्रसायनम् । दीर्घमायुर्धृतिं मेधामारोग्यं तरुणवयः ॥ ३७१ ॥ प्रभां वर्णं स्वरोदायर्थं देहेन्द्रियबलप्रदम् । वाक्सिद्धिं प्रणतां कान्तिं लभतेऽन्यात्रसायनात् ॥ ३७२ ॥ पूर्वं वयसि मध्ये वा शुद्धकायः समाचरेत् । नाविशुद्धशरीरस्य युक्तो रासायनो विधिः ॥ न भाति वाससि लिष्टे रङ्गयोग इवापितः ॥ ३७३ ॥

चिकित्सित, वातहर, पथ्य, साधन, औषध, प्रायश्चित्त, प्रशमन, प्रकृतिस्थापन और हित ये सब भेषजके नाम हैं। जो भेषज मनुष्यकी जरा और व्याधिको नाश करती है, उसको रसायन कहते हैं। रसायनको सेवन करनेसे दीर्घआयु, धारणाशक्ति, मेधा, आरोग्यता, तरुण अवस्था, प्रभा, वर्णकी सुन्दरता, स्वरकी श्रेष्ठता शरीर और इन्द्रियोंमें बलकी वृद्धि, वचनकी सिद्धि, कान्ति और अत्यन्त बुद्धिकी वृद्धि होती है। इसको प्रथम अवस्थामें अथवा मध्यम अवस्थामें प्रथम शरीरको वमन विरेचनादिके द्वारा अच्छे प्रकारसे शुद्ध करके सेवन करे। क्योंकि, अशुद्ध शरीरमें सेवन कीहुई रसायन यथार्थ गुण नहीं करती जैसे कि-मैले वस्त्रपर रंग नहीं चढ़ता ॥ ३७०-३७३ ॥

शीतोदकं पयः क्षौद्रं घृतमेकैकशो द्विशः । त्रिंशः समस्तमथवा प्राक्पीतं रथापयेद्भयः ॥ ३७४ ॥

शीतल जल, दूध, शहद और घी इन चारोंमेंसे एक किसीको अथवा दोनोंको मिलाकर या तीनोंको मिलाकर किन्वा चारोंको एकत्र मिश्रकर तित्त प्रातःकाल पीवे। यह उत्तम रसायन अवस्थाको स्थापन करती है ॥ ३७४ ॥

मण्डूकपर्ण्याः स्वरसः प्रभाते प्रयोज्य यष्टीमधुकस्य चूर्णम् । रसो गुडृच्यास्तु समूलपुष्पः कल्कः प्रयोज्यः खलु शंखपुष्पाः ॥ ३७५ ॥ आयुःप्रदान्यामयनाशनानि बलाग्निवर्णस्वरवर्धनानि । मेध्यानि चैतानि रसायनानि मेध्याविशेषेण च शंखपुष्पी ३७६

प्रतिदिन प्रातःकाल ब्राह्मीके स्वरसको पान करनेसे अथवा मुलेठीके चूर्णको सेवन करनेसे या गिलोयके रसको सेवन करनेसे अथवा जड़ और फूलों समेत शङ्खपुष्पीका कल्क बनाकर सेवन करे। ये प्रयोग आयुकी वृद्धि करनेवाले सम्पूर्ण रोगोंको नष्ट करनेवाले, एव बल, जठराग्नि और स्वर तथा मेधाकी वृद्धि करनेवाले हैं। इनमें शंखपुष्पी विशेषकर बुद्धिको बढ़ानेवाली है ॥ ३७५ ॥ ३७६ ॥

माक्षिकेण तुगाक्षीट्या पिप्पल्या लवणेन च । त्रिफलासितया वापि युक्तिसिद्धं रसायनम् ॥ ३७७ ॥

शहदके साथ वंशलोचन, सैधानमकके साथ पीपल और मिश्रीके साथ त्रिफलेके चूर्णको सेवन करना युक्तिसिद्ध रसायन है ॥ ३७७ ॥

असिततिलसमेतैश्छिन्नपत्रस्य भृङ्गैः प्रतिदिनमपि युक्तैः स्यान्नरः कामरूपः । अमृतफलसिताद्यैश्चूर्णितैस्तैर्द्विमासात् प्रहतगणसमूहः कृष्णकेशश्चिरायुः ॥ ३७८ ॥

काले तिल और भाँगेरेके पत्तोका चूर्ण करके प्रति दिन सेवन करनेसे मनुष्य कामदेवके सदृश रूप वाला हो जाता है । अथवा आमलोंका चूर्ण बनाकर मिश्री मिलाकर दो महीने पर्यन्त नियमसहित सेवन करनेसे—सर्वरोग नष्ट होकर वाल काले होते हैं और दीर्घ आयु होती है ॥ ३७८ ॥

चूर्णीकृतं भृङ्गराजस्यपत्रं कृष्णैस्ति-
लैरामलकैश्च सार्द्धम् । सितासमं भ-
क्षयतां नराणां न व्याधयो नैव ज-
रा न मृत्युः ॥ ३७९ ॥

भाँगेरेके पत्तोका चूर्ण १ भाग, काले तिल और आमले ये प्रत्येक आधा भाग लेकर चूर्ण बनावे । और सब चूर्णके बराबर मिश्री मिलावे । इस औषधिकी प्रतिदिन नियमपूर्वक सेवन करनेसे मनुष्योंको न रोग होते और न वृद्धता होती है और न मृत्यु होती है ॥ ३७९ ॥

भृङ्गराजरसायन ।

सम्यग् भृङ्गरजः क्षुण्णं वल्लपूतं प्रय-
त्नतः । क्षीरन्तु समभागेन मासमेकं
नियोजयेत् ॥ ३८० ॥ वर्षेनान्धो
गमनरहितो मत्तमातङ्गगामी मूको
वाग्मी श्रवणरहितो दूरशब्दानुश्रा-
वी । षण्ठः पुत्री भवति पलितो नी-
लजीमूतकेशो जीर्णा दन्ताः पुनरपि
दृढा वज्रदेहा भवन्ति ॥ ३८१ ॥

अच्छे प्रकारसे भाँगेरेके पत्तोका चूर्ण बनाकर वल्लमें छानकर बराबरके दूधके साथ एक महीने पर्यन्त सेवन करे । इस रसायनके प्रभावसे अन्धा मनुष्य और चलनेमें असमर्थ ये दोनों एक वर्षमें मत्त हाथीके समान गमन करते हैं । गूँगा मनुष्य वाचाल होजाता है । कर्णरहित अर्थात् बहरा मनुष्य दूरके शब्दोंको श्रवण करता है । नपुंसकपुरुष पुरुषार्थ-
की प्राप्त होकर पुत्रोंको उत्पन्न करता है । पलितरोगी (सफेदवालोंवाला) मेघके समान नीलवर्णके केशोंको धारण करता है । एवं पुराने दाँत फिरसे दृढ और शरीर वज्रके समान होजाता है ॥ ३८० ॥ ३८१ ॥

तिस्त्रस्तिस्त्रस्तु पूर्वाह्ने भुक्त्वा वा भो-
जयेन्नरः । पिप्पल्यः किंशुकक्षारभा-
विता घृतभर्जिताः ॥ ३८२ ॥ प्रयो-
ज्या मधुसर्पिर्भ्यां रसायनगुणैषिणा ।
जेतुं श्वासं क्षयं शोथं हिक्कां कासं
गलग्रहम् ॥ ३८३ ॥ अर्शासि ग्रहणी-
रोगं पांडुतां विषमज्वरम् । वैस्वर्ष्यं
पीनसं शोथं गुल्मवातबलासकम् ३८४

रसायनके गुणोंकी इच्छा करनेवाला मनुष्य पीपलोको ढाकके खारमें भावना देकर और घीमें भूनकर उनमेंसे प्रतिदिन प्रातःकाल तीन तीन पीप-
लोंको शहद और घृतमें मिलाकर भोजनसे पहले सेवन करे । इससे श्वास, क्षय, शोथ, हिचकी, खांसी, गलग्रह, ववासीर, संग्रहणी, पांडुता, विषम-
ज्वर, स्वरभंग, पीनस, सूजन, गुल्म, वात और कफके रोग नष्ट होते हैं ॥ ३८२-३८४ ॥

सिन्धूत्थशर्कराशुण्ठीकणामधुगुडैः

क्रमात् । वर्षादिष्वभया प्राश्या रसा-
यनगुणैषिणा ॥ ३८५ ॥

रसायनके गुणोंकी इच्छा करनेवाला मनुष्य हर-
डके चूर्णको वर्षाऋतुमें सैधेनमकके साथ, शरदऋतुमें
मिश्रीके साथ, हेमन्तऋतुमें सोंठके चूर्णके साथ,
शिशिरऋतुमें पीपलके चूर्णके साथ, वसन्तऋतुमें
शहदके साथ और ग्रीष्मऋतुमें गुडके साथ सेवन
करे ॥ ३८५ ॥

ग्रीष्मे तुल्यगुडां ससैन्धवयुतां मेघा-
वनद्धां वरे सार्द्धं शर्करया शरदम-
लया शुण्ठ्या तुषारागमे ॥ पिप्प-
ल्या शिशिरे वसन्तसमये क्षौद्रेण सं-
योजिता राजन् भक्ष हरीतकीं प्र-
तिदिनं नशयन्ति ते व्याधयः ॥ ३८६ ॥

हे राजन्, हरडको ग्रीष्मऋतुमें बराबरके गुडके
साथ, वर्षाऋतुमें सैधेनमकके साथ, शरदऋतुमें डर्यादे
भाग मिश्रीके साथ, हेमन्तऋतुमें सोंठके साथ, शिशि-
रऋतुमें पीपलके साथ और वसन्तऋतुमें शहदके
साथ प्रतिदिन सेवन कर । तेरे सम्पूर्ण रोगे नष्ट
होजायगे ॥ ३८६ ॥

जीर्णान्तेत्वभयामेकां प्राग्भुंक्ते च त्रि-
भीनकम् । भुंक्ते तु मधुसर्पिभ्यां च-
त्वाय्यामलकानि च ॥ ३८७ ॥ प्रयो-
जयेत्समानकं त्रिफलाया रसायनम् ।
जीवेद्वर्षशतं पूर्णप्रजराव्याधिरेव
च ॥ ३८७ ॥ ३८८ ॥

भोजनके जीर्ण होनेपर एक हरडके, भोजनसे
पाहिले वहंडेके और भोजन करनेके पञ्चान् गहद
और घीमे मिलाकर आमलोंको भक्षण करे । इस प्रकार
इसको बराबर सेवन करनेसे यह त्रिफलारसायन-
जरा और व्याधिको दूर करके सौ वर्षकी अवस्थाको
करती है ॥ ३८७ ॥ ३८८ ॥

विडङ्गासनधात्रिणां चूर्णं लोहरजो
घृतम् । एतत्संप्राश्य वृद्धोऽपि तारु-
ण्यमधिगच्छति ॥ ३८९ ॥

वायविडंग, विजयमार और आमले इन सबका
चूर्ण करके उसमें लोहेका चूर्ण और घृत मिलाकर
सेवन करनेसे वृद्धमनुष्य भी तरुणताको प्राप्त होता
है ॥ ३८९ ॥

कृमिघ्नमलकापथ्याकृष्णालोहरजो-
घृतम् । तैलान्वितं रजो लीड्वा जर-
या नाभिभूयते ॥ ३९० ॥

वायविडंग, आमले, हरड, पीपल, लोहचून वी
और तेल इन सबको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे
बुढ़ापा नहीं आता ॥ ३९० ॥

मासं वचाश्चाप्युपसेव्यमानां क्षीरेण
तैलेन घृतेन वापि । भवन्ति रक्षो-
भिरवृष्टरूपा मेधाविनो निर्मलव-
र्षवाचः ॥ ३९१ ॥

वचके चूर्णको एक महीनेतक दूधके साथ, तेलके
साथ अथवा घृतके साथ सेवन करनेसे सम्पूर्ण
विकारोंसे रहित होकर मनुष्य अत्यन्त सुन्दर
शरीर, मेधायुक्त और निर्मलवर्णको धारण करता
है ॥ ३९१ ॥

तीव्रेण कुष्ठेन परीतमूर्तिः यः सोम-
राजीं नियतेन खादेत् । संवत्सरं
कृष्णतिलं द्वितीयं स सोमराजीव
वपुर्विधत्ते ॥ ३९२ ॥

तीव्रकुष्ठमे पीडित जो मनुष्य वापचीको या कोले
तिलोंके चूर्णको एक वर्ष पर्यन्त नियमसे सेवन
करे तो वह चन्द्रमाके समान कान्तिमान शरीरको
धारण करता है ॥ ३९२ ॥

पुनर्नवस्याधपलं नवस्य पिष्ट्वा पिवे-
द्यः पयसार्द्धमासम् । मासद्वयं त-
त्रिगुणं समं वा जीर्णोऽपि भूयः स
पुनर्नवः स्यात् ॥ ३९३ ॥

जो तांले नवीन पुनर्नवकी जड़को दूधमें पीसकर
अर्द्धमासपर्यन्त या एक महीनेतक अथवा दो मही-
नेतक किंवा तीन महीनेतक अथवा अधिक दिनोंतक
जो मनुष्य सेवन करता है वह जीर्ण(वृद्ध)होनेपर भी
फिरसे नव यावन युक्त होजाता है ॥ ३९३ ॥

त्रे मासमेकं स्वरसं पिवन्ति दिने
दिने मृद्गरजःसमुत्थम् । क्षीराशि-
नस्ते बलवीर्ययुक्ताः समाः शतं
जीवितमाप्नुवन्ति ॥ ३९४ ॥

नित्य प्रति दूधको सेवन करनेवाले जो मनुष्य
प्रतिदिन एक महीनेतक भांगरेका स्वरस पान करते
हैं वे अत्यन्त बल वीर्ययुक्त होकर सौ वर्षतक जीते
हैं ॥ ३९४ ॥

शतावरीमुण्डतिकागुडूची सहस्ति-
कर्णा सह तालमूली । एतानि कृत्वा
समभागयुक्त्या सर्पिर्मधुभ्यां सततं
बिलिह्यात् ॥ ३९५ ॥ जरारुजामृत्यु-
विमुक्तदेहो भवेन्नरः कान्तिबलादि-
युक्तः । विभाति देवोपम एव नित्यं
शुद्धामयो भूरिविशुद्धबुद्धिः ॥ ३९६ ॥

शतावर, गोरखमुंडी, गिलोय, हस्तिकर्ण, पलाश
और सुसली इन सबको समानभाग लेकरके एकत्र

पीसकर शहद अथवा घीके साथ सेवन करनेसे जरा मरण और रोगरहित होकर मनुष्य अत्यंत वीर्य और बलसे युक्त होता है । तथा देवताके समान शोभायमान और अत्यंत शुद्धवृद्धिवाला एव रोगरहित होता है ॥ ३९५ ॥ ३९६ ॥

पीताश्वगन्धा पयसाऽर्द्धमासं घृतेन तैलेन सुखांडुना वा । कृशास्य पुष्टिं वपुषो विधत्ते बालस्य स्वस्यस्य यथा-बुवृष्टिः ॥ ३९७ ॥

असगंधके चूर्णको दूधके साथ, अथवा घृतके साथ, या तेलके साथ, किन्ना गमन जलके साथ १५ दिनतक सेवन करनेसे, कृश शरीरकी इसप्रकार अत्यन्त पुष्टि होती है, जिसप्रकार भेवके जलसे नवीन खेती परिपुष्ट होती है ॥ ३९७ ॥

आभाश्च सोमराजीश्च समभागवि-चूर्णिताम् । नरः क्षरिण्य संपीत्वा सुकृशः स्थूलतां व्रजेत् ॥ ३९८ ॥ देहकम्पे च शोषे च योगमेतत् प्रयोजयेत् । मासमात्रोपयोगेन माति-मात्रायते नरः ॥ मेधावी स्मृतिमां-श्चैव बलीपलितनाशनः ॥ ३९९ ॥

बधूरके बीज और बापचीके बीज इन दोनोंको समानभाग लेकर एकत्र चूर्ण करके दूधके साथ सेवन करनेसे कृशमनुष्य स्थूलताको प्राप्त होता है । तथा शरीरकम्प और शोषरोगमें भी यह योग प्रयोग करना चाहिए । इसको केवल एक महीनेपर्यंत सेवन करनेसे मनुष्य बुद्धिमान होजाता है । तथा मेवायुक्त, स्मरणशक्तिसम्पन्न और बली, पलित आदि रोगोंसे रहित होता है ॥ ३९८ ॥ ३९९ ॥

अश्वगन्धातसी शुण्ठी निर्युण्ठी मागधी तथा । षड्वापराजिताश्चैव सम-भागानि कारयेत् ॥ ४०० ॥ कर्षैकं भक्षयेन्नित्यं पयसान्नं पिबेदनु । सन्धिवातं निहन्त्याशु साध्यासाध्यं न संशयः ॥ रसायनमिदं प्रोक्तं बलीपलितनाशनम् ॥ ४०१ ॥

असगंध, अलसी, साठ, सम्हालू, पापल आर कोइली ये छहो औषधियाँ समानभाग लेकर सबको एकत्र पीसकर प्रतिदिन एक २ तोला परिमाण सेवन करे और ऊपरसे दूधके साथ भात खाए । यह उत्तमरसायन राध्थ और असाध्य प्रायः सर्भीप्रकार के रधिवालेके रोगोंको नष्ट करती है । तथा बली पलितआदि रोगोंको भी नष्ट करती है ॥ ४०० ॥ ४०१ ॥

बृद्धदारकमूलन्तु योजयेन्मधुसर्पि-षा । तप्ताहात् क्षीरभक्ताशी किन्न-रैः सह गीयते ॥ ४०२ ॥

जो विधारेकी जडको शहद और घीमें मिलाकर सात दिनतक सेवन करे और दूधके साथ भोजन करे तो वह मनुष्य किन्नरोंके समान गाने लगता है ॥ ४०२ ॥

हस्तिकर्णरजः खदित्प्रातस्तथाय स-र्पिषा । यथेष्टाहारचारोऽपि सहस्रा-युर्नरो भवेत् ॥ ४०३ ॥

हस्तिकर्ण और पलाशकी जडको पीसकर घृतमें मिलाकर प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करे और इसपर यथेष्ट आहार विहार करे तो भी मनुष्य सहस्र वर्षकी आयुवाला होता है ॥ ४०३ ॥

मेधावी बलवान् कामी स्त्रीशतानि व्रजत्यसौ । मधुना त्वश्ववेगः स्याद्द-रिष्ठः स्त्रीसहस्रगः । अयं मन्त्रः प्रयो-क्तव्यो भिषजा वाऽभिमन्त्रणे ॥ ४०४ ॥

और वह मनुष्य मेधायुक्त, बलवान्, कामनायुक्त तथा सैकड़ों स्त्रियोंमें गमन करनेवाला होता है । और जो इसको शहदके साथ सेवन करे तो अश्वके समान वेगवाला, बलवान् और एक सहस्र स्त्रियोंमें गमन करनेवाला होता है । इस नीचे लिखे हुए मंत्रसे वैद्यको प्रथम हस्तिकर्ण पलाशका चूर्ण अभिमन्त्रित करलेना चाहिये ॥ ४०४ ॥

ॐ नमो महाविनायकाय अमृतं रक्ष रक्ष मम फलसिद्धिं देहि रुद्रस्य वचनेन स्वाहा ।

ॐ नमो महाविनाकाय अमृतं रक्ष रक्ष मम फलसिद्धिं देहि रुद्रस्य वचनेन स्वाहा” यह मंत्र है । (मन्त्रार्थ) ॐ काररूप महाविनायकके लिए प्रणाम है ।

हे महाविनायक तुम मेरे प्राणकी रक्षा करो और शंकर भगवान् की आज्ञासे मुझको फलसिद्धि प्रदान करो ।

गुडूच्यपामार्गविडङ्गशङ्खिनी वचा-
भयाशुण्ठिशतावरीसमा । घृतेन
लीढा प्रकरोति मानवं त्रिभिर्दिनैः
श्लोकसहस्रधारिणम् ॥ ४०५ ॥

गिल्लोय, चिरचिटा, वायविडंग, शंखाहुली, वच, हरड, सोंठ और शतावर ये सब औषधियाँ समान भाग लेकर एकत्र पीसकर घीमे मिलाकरके सेवन करनेसे तीन दिनमें मनुष्यको एक हजार श्लोकोंको धारण करनेकी शक्ति उत्पन्न करती है ॥ ४०५ ॥

ब्राह्मीवचाभयावासा पिप्पलीमधु-
संयुता । अस्य प्रयोगात्सप्ताहात्
किन्नरैः सह गीयते ॥ ४०६ ॥

ब्राह्मी, वच, हरड, अडूसा, पीपल और शहद इन सबको एकत्र मिलाकर सात दिनतक सेवन करनेसे मनुष्य किन्नरोंके समान गाता है ॥ ४०६ ॥

पञ्चाङ्गमिन्द्राशनश्लक्ष्णचूर्णं पलाष्ठ-
कं सप्त सिता पलानि । सिताधमानं
मधु तस्य चार्द्धं घृतं क्षिपेत्सवमिदं
विमिश्रम् ॥ ४०७ ॥ कृत्वा नरो मा-
सचतुष्टयं यत् पयोऽन्नभक्षी पयसा च
भुङ्क्ते । विहाय रोगान् सकलान्मनी-
षी जीवेच्चिरं यौवनसंस्थितश्रीः ॥ ४०८ ॥

भांगके पंचांगका बारीक चूर्ण ८ पल और मिश्री ७ दल, मिश्रीसे आधा शहद और शहदसे आधा भाग घृत लेवे । सबको एकत्र मिलाकर उसमेंसे प्रतिदिन चार २ माशे दूधके साथ खाय और ऊपरसे दूध भातका भोजन करे तो सर्व प्रकारके रोगोंसे रहित होकर मनुष्य अत्यन्त बुद्धिमान् और नवयौवनकी शोभासे युक्त होकर बहुतकालतक जीता रहता है ॥ ४०७ ॥ ४०८ ॥

द्रोणीमार्द्रपलासस्य सपिधानं निरू-
पितम् । धात्रीफलसहस्रेण नीरुजा
ब्रह्मदारुणी ॥ ४०९ ॥ नीरुन्ध्रं नि-
र्दहेन्मन्दं गोमयस्य च वह्निना ।

स्विन्नमामलकं क्षुण्णं पश्चाद्गुडृत्य चू-
र्णकम् ॥ शौण्डीतण्डुलचूर्णानाम-
प्येवाढकसंयुतम् ॥ ४१० ॥ तत्तुल्ये-
न शिलार्द्धश्च विडङ्गस्याढकेन च ।
सर्पिर्माक्षिकतैलानामाढकानां पृथक्
पृथक् ॥ ४११ ॥ तत्संस्थाप्य त्रि-
सप्ताहं सुभाण्डे घृतभाविते ।
ततोऽग्निबलमालोक्य प्रयुञ्जीत यथा-
विधि ॥ ४१२ ॥ एतद्रसायनं
श्रेष्ठं महामुनिनिषेवितम् । अनेना-
ब्दशतं पूर्णं वपुस्तिष्ठति निर्जरम् ॥
४१३ ॥ अङ्गानाश्च न शौथिल्यं
न च लावण्यशून्यता । जायते न च
वैकल्यमिन्द्रियाणां कदाचन ॥ ४१४ ॥

ढाककी गीली लंकडीकी द्रोणी बनाकर उसमें एक हजार आमले भरकर और ऊपरसे कृमिरहित बेल या पीपलकी खूब अच्छेप्रकारके ढक्कन लगाकर जोड बन्द करके उपलोकी अग्निके द्वारा मन्द मन्द पकावे फिर उन सीजे हुये आमलोको पीसकर चूर्ण करले । पश्चात् पीपलके चावलोंका चूर्ण एक आढक परिमाण, शिलाजीत १ आढक, वायविडंगका चूर्ण १ आढक एवं शहद, घृत और तेल ये प्रत्येक एक एक आढक परिमाण लेकर इन सबके साथ उक्त आमलोके चूर्ण को मिलाकर चिकने बासनमें भरकर २१ दिनतक रखदेवे । फिर अग्निका बलावल विचार कर यथाविधिसे प्रयोग करे । यह श्रेष्ठ रसायन महामुनिकी सेवन कीहुई है । इसको विधिपूर्वक सेवन करनेसे जरारहित होकर मनुष्य पूर्ण सौवर्पतक जीता रहता है । इसको सेवन करनेसे न तो कभी अंगोंमें शिथिलता होती है, न कभी लावण्यता दूर होती है और न कभी इन्द्रियोंमें विकलता होती है ॥ ४०९-४१४ ॥

जलपान ।

कासश्वासातिसारज्वरपिटककटीकु-
ष्ठमेदोविकारान् । मूत्राघातोदरार्शः-
श्वयथुगलशिरः-स्त्रावश्लेष्माक्षिरोगान्
॥ ४१५ ॥ ये चान्येवातपित्तश्रमज-

कफकृता व्याधयः सन्ति जन्तोः ।
तांस्तानभ्यासयोगादपनयति पयः
पीतमन्ते निशायाः ॥ ४१६ ॥

जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदयसे पहिले
अर्थात् रात्रिके अंतमें नित्य नियमपूर्वक जलपान कर-
ता है उसके खांसी, श्वास, अतिसार, ज्वर, पिटक,
कटिग्रह, कुष्ठ, भेदके विकार, मूत्राघात, उदररोग,
अर्शरोग, शोथ, गलरोग, शिरोरोग, स्राव, शूल,
नेत्ररोग, तथा अन्यान्य वात, पित्त, श्रम और कफज-
नित सम्पूर्ण रोग नष्ट होते हैं ॥ ४१५ ॥ ४१६ ॥

अम्भसः प्रसृतान्यष्टौ रवावनुदिते
पिबेत् । वातपित्तकफान् हत्वा जीवे-
द्वर्षशतं नरः ॥ ४१७ ॥

सूर्योदयके समय जो मनुष्य प्रतिदिन नियमके
साथ आठप्रसूति परिमाण जलपान करता है, वह
मनुष्य समस्त वातपित्त और कफके रोगोंसे रहित
होकर सौवर्षतक जीता रहता है ॥ ४१७ ॥

व्यङ्गवलीपलितघ्नं पीनसर्वैस्वर्यका-
सशोथघ्नम् । रजनीक्षयेऽम्बुनस्यं रसा-
यनं दृष्टिजननञ्च ॥ ४१८ ॥

रात्रिके अंतमें जलकी नस्य देनेसे व्यंग (झाई),
वली (शरीरमें बलोंका पडना), पलित (वालोका
सफेद होजाना), पीनस, स्वरभंगता, खांसी और
सूजन नष्ट होती है । यह रसायन दृष्टिकी शक्तिको
बढाता है ॥ ४१८ ॥

विगतघननिशीथे प्रातरुत्थाय नित्यं
पिबति खलु नरो यो घ्राणरंघ्रेण
वारि । स भवति मतिपूर्णश्चक्षुषा ता-
क्षर्यतुल्यो वलिपलितविहीनः सर्व-
रोगैर्विमुक्तः ॥ ४१९ ॥

जो मनुष्य मेघरहित रात्रिके अंतमें प्रतिदिन प्रातः
काल उठकर नासिकोके द्वारा जलपान करता है, वह
महामतियुक्त, गरुडके समान नेत्रोवाली, वली और
पलित तथा सम्पूर्ण रोगोंसे रहित होकर बहुतादिनो-
तक जीता रहता है ॥ ४१९ ॥

प्रसन्नदृष्टिर्दृढदन्तकेशः शशाङ्कवक्रः
पलितैर्विहीनः । पिडिकाविनाशः

कमलास्यगन्धो नस्योपसेवी भवती-
ह मर्त्यः ॥ ४२० ॥

मनुष्य विधिपूर्वक नित्य जलकी नस्य सेवन करे
तो दृष्टि प्रसन्न होती है, दाँत और केश दृढ होते हैं,
मुख चन्द्रमाके समान होजाता है, पलितरोगसे
मुक्त होता है, सम्पूर्ण मुखपिडिकायें दूर होती हैं
और मुखमें कमलके समान गन्ध आने लगती
है ॥ ४२० ॥

तत्रिफलाम्बु निशीस्थं वलीपलित-
हरं दृष्टिजननञ्च । प्रसृतत्रयं प्रपेयं
नासिकरंघ्रेण नैशिकं तोयम् ॥ ४२१ ॥

त्रिफलेको रात्रिके समय जलमें भिजोकर रखदेवे
फिर प्रातःकाल वस्त्रमें छानकर प्रतिदिन तीन प्रसृत
परिमाण नासिकोके द्वारा पान करे तो वली और
पलितरोग नष्ट होते हैं और दृष्टिकी शक्ति बढती
है ॥ ४२१ ॥

मधुहरीतकी ।

दुर्नामश्वासकासज्वरवमथुतृषापाण्डुता
नेत्ररोगान् । हिक्काकुष्ठातिसा-
रभ्रममदसदृशाऽजीर्णशूलप्रदोषान् ॥
तृष्णाशूलास्रपित्तं ज्वरविगतजरारो-
चकानाहवातान् । हन्यादेतानवश्यं
मधुनि परिगता पूतना चाम्लपि-
त्तम् ॥ ४२२ ॥

शहदमें पडीहुई हरडको सेवन करनेसे ववासीर,
श्वास, खाँसी, ज्वर, वमन, तृषा, पाण्डुता, नेत्ररोग,
हिचकी, कुष्ठ, अतिसार, भ्रम, मद, अजीर्ण, शूल,
तृषा, रक्तपित्त, ज्वर, जरा, अरुचि, अनाह, अम्ल-
पित्त और वातरोग ये सब अवश्य नष्ट होते हैं ४२२

लोहगुग्गुलु ।

अयःपलं गुग्गुलुरत्र योज्यं पलत्रयं
व्योषपलानि पञ्च । पलानि चाष्टौ
त्रिफलारजस्य कर्षं लिहन् यात्यमर-
त्वमेव ॥ ४२३ ॥

लोहेका चूर्ण ४ तोले, गूगल १२ तोले, त्रिकुटा
२० तोले और त्रिफलेका चूर्ण ३२ तोले लेवे । सबको

एकत्र मिलाकर प्रतिदिन एक एक तोला परिमाण खाय तो जरा दूर होकर अमरता प्राप्त होती है ॥ ४२३ ॥

नरसिंहचूर्ण ।

त्रिकण्टविदारिनिस्तुपतिलबहुपत्री-
रजश्चतुःप्रस्थम् । भल्लानकप्रस्थयुतं
तत्समानं शुद्धूच्याश्च ॥ ४२४ ॥ पञ्च-
त्रिंशन्मधुनो व्योपस्याष्टौ पलानि
दश वह्निः । द्विगुणवाराही सप्तदश-
गुणा शर्करा सप्तता च ॥ ४२५ ॥
खादेद्यथाग्निहन्तुं रोगानीकं क्षयं का-
सम् । अश्मथ्युदरभगन्दरकुष्ठवली
पलितपीनसानान्धयम् ॥ ४२६ ॥ नर-
सिंहसदृशविक्रममन्यान्यप्याभिवाञ्छि-
तानि लभते । बलवर्णस्वरकान्ति-
पुष्ट्युत्साहसत्त्वसंयुक्तम् ॥ ४२७ ॥
उपयुञ्ज्य चूर्णमिदं सर्वरोगहरश्च नर-
सिंहाख्यम् । पुत्राञ्जनयति वीरान्
नरसिंहपराक्रमानरोगान् ॥ ४२८ ॥
वाराहमूर्ध्वत्कन्दो वाराहीकंदसंजि-
तः । भिषजा तदलाभेऽपि चर्मकारा-
लुको मतः ॥ ४२९ ॥

गोखुरू, विदारीकन्द, छिलके रहित स्वच्छ धुले हुए तिल और शतावर इन सबका चूर्ण ४ प्रस्थ, शुद्ध भिलावे १ प्रस्थ और गिलोयका चूर्ण १ प्रस्थ, शहद ३५ पल, त्रिकुटा आठ पल, चीता १० पल, सब चूर्णसे दुगुना वाराहीकन्दका चूर्ण, मिथी और घृत १७ गुना मिलाकर सबको अच्छेप्रकारसे एकत्रित करके एक चिकने वासनमे भरकर रखदेवे । इसको अमिका बलाबल विचार कर भेवन करे । यह नरसिंह नामक चूर्ण-सर्वप्रकारके रोगोंके समूह यथा राजयक्ष्मा, खोंसी, पथरी, उदररोग, भगन्दर, कुष्ठ, वली, पलित, पीनस और अन्धता आदि समस्त रोगोंको दूर करता है । तथा नरसिंहके समान पराक्रम और अन्यान्य मनोवाञ्छित कामनाओंको भी प्राप्त होता है । एवं बल, वर्ण, स्वर, कान्ति, पुष्टि, उत्साह और साहस इनसे युक्त होता

है । यह नरसिंहचूर्ण नरसिंहके समान पराक्रमी, आरोग्य और योग्यपुत्रोंको उत्पन्न करता है । मृत्रके धिरके समान तो कन्द होता है, उसके वाराहीकन्द कहते हैं । ये सब उमके प्रभावमें चर्ममारालु प्रयोग करने हैं ॥ ४२४-४२९ ॥

अश्वगन्धाद्यचूर्ण ।

अश्वगन्धापलं त्रिंशच्चूर्णयित्वा त्रि-
चक्षणः । वृद्धदारुकचूर्णेन समभागन्तु
कारयत ॥ ४३० ॥ न्यापयित्वा घटं
दिव्ये सर्पिणा परिभाषिते । कर्षमेकं
समश्रीयाच्चूर्णय पयसा सह ॥ ४३१ ॥
अवाहिकस्य स्वेदस्य परिहारो न
विद्यते । करीव नित्यं त्रयानि सर्वदो-
षाविवर्जितम् ॥ ४३२ ॥ तेजसा प्रभ-
वत्युग्रो रश्मिवानिव भारकरः । भव-
त्येव चतुर्मासर्वलीपलितवर्जितः ४३३

शुद्ध असगन्धका ३० पल लेकर चूर्ण करके उसमें ३० पल विचारका चूर्ण मिलावे । दोनोंको एकत्र करके घृतके चिकने सुन्दर वासनमें भरकर रखदेवे । फिर प्रतिदिन उस चूर्णको एक तोला परिमाण दूधके साथ सेवन करे । इसपर अवाहिक स्वेदका कुछ परिहार नहीं है । इसके प्रभावसे हाथीके समान सर्वदोषोंसे रहित होकर मनुष्य निरन्तर त्रयता रहता है । इसको चार महीने पर्यन्त सेवन करनेसे सूर्यके सगान अनीत्र तेज जो धारण करता है तथा वली और पलितरोगरहित होजाता है ॥ ४३०-४३३

वृद्धदारुकल्प ।

वृद्धदारुत्रिवृहन्तीकदम्बार्जुनगोक्षु-
राः । वाट्यालकाजकणौ च वा-
जिगन्धा शतावरी ॥ ४३४ ॥ का-
र्पासी पृश्निपर्णी द्वे वह्निश्चैवापरा-
जिता । कञ्चुकी तालमूली च वृ-
हत्पत्री पलाशिका ॥ ४३५ ॥ प्र-
न्थिकं चित्रकं चैव विश्वेदेवावचा-
मृता । बाणपुष्पी च पाठा च बि-
म्बीवरुण एव च ॥ ४३६ ॥ शिशुः

कुलिशभृङ्गौ च मुण्डी च कोकिला-
ख्यकः । अर्कक्षीरं शताह्वा च वचा-
चव्यफलत्रिकम् ॥ ४३७ ॥ यवानी
चाजमोदा च द्विजीरं धान्यतण्डु-
लाः । विडङ्गमुस्ततालीशं निशो
लवणपञ्चकम् ॥ ४३८ ॥ एलापुष्कर-
नागाहृत्वकूपत्रं हस्तिपिप्पली ।
फलीकुष्ठं शटीरेणु जलहिंशु सवाल-
कम् ॥ ४३९ ॥ पापाणभेदो वृक्षाम्ल-
भद्रोत्कटवितुन्नकः । पलिकाभागतो
ग्राह्या गुडूचीविश्वदारुकम् ॥ ४४० ॥
स्तुहीपलाशमृत्पाशर्वाशिखरीविडकं
गणा । स्वर्जिका यावशूकाख्या चै-
षां क्षारः पलोन्मितः ॥ ४४१ ॥ अन्न-
कस्य पलान्यष्टौ चत्वारि गन्धकस्य
च । पलद्वयसं ग्राह्यं लोहं चाष्टपलं
तथा ॥ ४४२ ॥ गवाक्षीभृङ्गकेशी
च शालिश्र केशराजकम् । भाणक-
न्दः कटिलश्च दहनो हस्तिकर्णकः ॥
॥ ४४३ ॥ भल्लातमुसलीशुण्ठी त्रिफ-
लावज्रवल्ल्यापि । एषां रसं पृथग्लोहं
पुटयेन्मर्दयेत्तथा ॥ ४४४ ॥ ग्रन्थि-
मान्मारिषश्चैव क्षारं बृहतिकं त-
था । उत्कटो लोहितो वह्निर्माणो
वाणरसैः शुभैः ॥ ४४५ ॥ पुटयेद-
न्नकश्चैवमयसश्च यथाविधि । काक-
शामणिपिण्डेन पयसा संयुतेन
च ॥ ४४६ ॥ यावत्पिण्डो भवेत्ताव-
च्छास्त्रविन्मृदुवह्निना । एकीकृत्य शु-
भे भाण्डे स्थापयेद्रसगोपितम् ॥ ४४७ ॥
सर्पिषा मकरन्देन भक्षयेत्प्रत्यहं तु
सः । अनुपिवेत्पयः क्षीरं शूषं मांस-
रसं तथा ॥ ४४८ ॥ भोजनं चाग्नि-
सापेक्षं कार्यश्चैव सहं तथा । विहि-
तञ्च मितं चाद्याद्रोषधे पाकमाग-

ते ॥ ४४९ ॥ आहारेण समं कार्यं
नित्यमेवाल्पवह्निना ॥ अग्निवृद्धिकरः
कायरोगाणां चापहारकः ॥ ४५० ॥
वाते पित्ते कफे शूले हृद्रोगश्वास-
कासयोः । क्षये च विविधे घोरे
शोथे चैवाङ्गसंगमे ॥ ४५१ ॥ आ-
मवाते त्रिकशूले पंक्तिशूले च सर्वगो
अम्लपित्ते सशूले च शोथे सर्वोदरे
तथा ॥ ४५२ ॥ पुत्रकार्ये मृते योन्ये
पुंसो नायर्था भिषक्तमैः । अयमेव हि-
तो नित्यं शुक्रवृद्धिकरः परः ॥ ४५३ ॥

विधारा, निसात, दंती, कदम्ब, अर्जुन, गोखुरु,
खिरैटी, विजयसार, असगंध, गतावर, कपास, पुत्रि-
पर्णी, जालिपर्णी, चीता, कोइली, क्षीरमोरट, मुसली,
त्रिपर्णीकन्द, गवपलाशी, पीपलामूल, चीता, लाल-
फूलका दंडोत्पल, वच, गिलोय, वाणपुष्पी, पाढ,
कन्दूगी, वरना, सीहजना, हडसंहारी, भोंगरा, गोर-
खमुण्डी, तालमखाना, आकका दूध, सौफ, वच,
चव्य, त्रिफला, अजमोद, अजवायन, जीरा, काला-
जीरा, धनियेकं चावल, वायविडग, नागरमोथा,
तालीशपत्र, हलदी, दारुहलदी, पांचौनमक, इलायची,
पोहकरमूल, नागकेशर, दालचीनी, तेजपात, गजपी-
पल, फूलप्रियंगू, कूठ, कचूर, रेणुका, सुगंधवाला,
हींग, खस, पापाणभेद, विपाविल, प्रसारणी, मुई
आमला, गिलोय, देवदारु, थूहर, ढाक, पारिसपीपल,
और चिरचिटा इन सबका खार, विडलवण, सजी
और जवाखार ये प्रत्येक औषधि चार चार ब्रोलो,
तथा अन्नककी भस्म ८ पल, गन्धक ४ पल, पारा
२ पल और लोहेकी भस्म ८ पल लेंवे । सबको
एकत्र पीसकर रखदेवे । इसमे जो आठ पल लोहा
कहा है उसको मारनेकी विधि इस प्रकार है ।
प्रथम लोहेको लेकर इन्द्रायण, भोंगरा, वालुड,
शालिचशाक, कुकुरभोंगरा, मानकंद, करेला, चीता,
हस्तिकर्णपलाश, भिलावे, मुसली, सोठ, त्रिफला
और हडसंहारी इन औषधियोंके रसमे अलग अलग
मर्दन करके वारंवार पुट देवे । फिर इसीप्रकार
हडसंहारी, मरसा और वडी कटेरीका खार तथा
सिंहजना, पतंग, चीता, मानकंद और सरपता

इन प्रत्येकके रसके द्वारा अश्रकको पुट देदेकर मर्दन करे । इसप्रकार लोहे और अश्रकको मारण करके उनमें पूर्वोक्त औषधियाँ मिलावे । फिर इस औषधि-को चौटलीकी लुगदीमें रखकर दूधके योगसे मंद २ अग्निके द्वारा जबतक पकते २ पिडके समान गोला सा न होजाय तबतक पकावे । फिर इसको अच्छे प्रकारसे खूब एकमएक करके उत्तम चिकने वासनमें भरकर रखदेवे । इसको प्रतिदिन घी और शहदके साथ मिलाकर अग्निका बलावल विचारकर भक्षण करे और ऊपरसे जल, दूध, यूप और मांसरसका अनुपान करे । औषधिके जीर्ण होनेपर अग्निके बलानुसार आहार करे । यह औषधि अग्निको दीपन करनेवाली और सम्पूर्ण शरीरगत रोगोंको हरनेवाली है । तथा वात, पित्त, कफ, शूल, हृदयरोग, श्वास, खाँसी, अनेकप्रकारका घोर क्षयरोग, शोथ, आम-वात, त्रिकशूल, परिणामशूल, सर्वांगशूल, शूलसहित अम्लपित्त, शोथ और समस्त उदररोगोंमें यह औषधि अतीव हितकारी है । जिन स्त्रियोंके पुत्र नहीं होता अथवा जिनकी संतान होकर मर जाती है और जो पुरुष सदैव स्त्रियोंमें आसक्त रहना चाहते हैं, उनको यह औषधि नित्य शुक्रवृद्धि करनेके लिये सेवन करनी चाहिये ॥ ४३४-४५३ ॥

ज्योतिष्मति तैलपानविधि

जगति ज्योतिष्मती प्रसिद्धगुणिनी तस्यास्तैलनिष्कासयित्वा जीर्णपुराणशाल्यन्नेन मत्स्यण्डिमधुरेण पाणितलाङ्गं संवृद्ध्या प्रत्यहं भक्षयेच्च । वर्द्धयेत्पलं यावन्नातः परतरं विवृद्धिः कार्या मासस्थितिश्चैषा पलमप्युत्तममात्राहुतभृग्बलालुरोधेन भिषजानालुकल्पनीया एवं तैलाढकमुपयुज्य महाबलो महाप्राणः षोडशवर्षाङ्कतिनीरोगो भवति ।

जगतमें ज्योतिष्मती प्रसिद्ध गुणोंवाली औषधि है उसका तेल निकालकर उसमेंसे प्रतिदिन छ.मासे लेकर पुराने शालिचावलोके भात राव और शहदके साथ खाय । इसीप्रकार प्रतिदिन क्रमसे मात्रा बढ़ा कर खाय जब बढ़कर चार तोलेकी मात्रा होजाय

तब फिर आगे अधिक नहीं बढ़ावे फिर नित्य चार तोले खाय । इसप्रकार एक महीनेतक सेवन करे । एकपल इसकी उत्तम मात्रा है । अग्निके बलानुसार वैद्य अनुपानकी कल्पना करे । इसप्रकार इस मालकागुनीके तेलको एक आठकपरिमाण सेवन करनेसे मनुष्य महाबलवान्, महाप्राण और सोलहवर्षके समान युवा अवस्थाको धारण करता हुआ आरोग्य होता है ॥

लोहरसायन ।

विडङ्गसारो मेवाख्यो रक्तवह्निररु-
ष्करः । हस्तिकर्णः सितार्कस्तु श्वेत-
वर्षासमुद्भवम् ॥ ४५४ ॥ बाहुचमि-
ण्डिकाभृङ्गो राजको वृद्धदारकः ।
शुद्धच्यतिबलारास्त्रा तालमूलीशता-
वरी ॥ ४५५ ॥ पिण्डारकश्चैडगजो
वैडालः केशराजकः । एकैकं पलमे-
तेषां ग्राह्यं समधुना घृतम् ॥ ४५६ ॥
रसस्यैकं पलं ग्राह्यं लोहस्य पलविं-
शतिः । चत्वारिंशत्तथाश्रस्य शूलवं
चापि चतुष्पलम् ॥ ४५७ ॥ गन्धकस्य
पलान्यष्टौ षट्पलानि मनःशिला ।
स्वर्णमाक्षिकचत्वारि षट्पलानि शि-
लाजतोः ॥ ४५८ ॥ त्रिफलात्रिकटूना-
श्च प्रत्येकश्च पलत्रयम् । सर्वाण्येता-
नि संचूर्ण्य घृतेन मधुना सह ॥ ४५९ ॥
स्निग्धे भाण्डे समालोड्य स्थापयि-
त्वा विचक्षणः । भक्षयेत् क्रमयोगेन
लोहं सर्वरसायनम् ॥ ४६० ॥

विडङ्गसार, नागरमोथा, लालचीता, भिलावे, हस्तिकर्णपलाश, सफेदआक, सफेदपुनर्ववा, वापची, गोरखमुंडी, भाँगरा, विधारा, गिलोय, कंधी, रायसन, मुसली, शतावर, पिंडार, चक्रवड, जवादिक-स्तूरी और कुकुरभाँगरा ये प्रत्येक औषधि चार चार तोले लेकर सबको एकत्र पीसकर, शहद और घीमें मिलाकर रखदेवे । फिर इसमें पारेकी भस्म चार तोले, लोहेकी भस्म याँरससिन्दूर २० पल, अश्रककी भस्म ४० पल, ताँबेकी भस्म १६ तोले, शुद्ध-

गंधक ३२ तोले, शुद्ध मैनाशिल २४ तोले, सोना-
माखी १६ तोले, शिलाजीत २४ तोले तथा त्रिफला
और त्रिकुटेकी प्रत्येक औषधि बारह बारह तोले
लेकर सबको एकत्र कूट पीसकर गहद और घीमे
मिलाकर एक उत्तम चिकने बासनमे भरकर रख-
देवे। फिर प्रतिदिन इस लोहरसायनको क्रमसे मात्रा
बढाकर नियम पूर्वक सेवन करे ॥ ४५४-४६० ॥

दासरसायनलोह ।

पारदं विधिना शुद्धं पलद्वितयसं-
मितम् । चतुष्पलं लोहचूर्णं चतुर्विं-
शपलं सिता ॥ ४६१ ॥ मनोह्वागन्ध-
पाषाणं हरितालञ्च शुद्धकम् । का-
सीसं हिङ्गुकुष्ठञ्च वचाशीररसाञ्जनम्
॥ ४६२ ॥ सारं खदिरवृक्षस्य जाती-
फलमन्वितम् । द्विपलं सूक्ष्मचूर्णन्तु
सर्वेषां परिकीर्तितम् ॥ ४६३ ॥ गग-
नाद्विपलं कृष्णा लोहवत्पुटितात् क्ष-
तात् । शास्त्रोक्तपृथगुद्दिष्टैः संयोज्य
विधिनोचितम् ॥ ४६४ ॥ त्रिंशश्च त्रैफ-
ले तोये प्रस्थेन सह सर्पिषा । शृङ्गवे-
रसप्रस्थं निष्काथ्यं वक्ष्यमाणकैः ॥
४६५ ॥ त्रिवर्णोदितचित्रञ्च चा-
स्थिसंहारसूरणम् । नामवर्षां सगो-
धूमभूमिकूष्माण्डतण्डुलाः ॥ ४६६ ॥
सौभाञ्जनं तालमूली मोरटं शंख-
पुष्पिका । पृथगष्टपलञ्चैषां वारिद्रोणे
विपाचयेत् ॥ ४६७ ॥ अष्टभागाव-
शिष्टेन कषायं कारयेत्सुधीः । मधुनो
द्वात्रिंशत्पलं क्षिपेत्तत्र सुशीतले ॥
४६८ ॥ त्रिकटुत्रिफलासिन्धु विडं
सौवर्चलं तथा । टङ्गणो यावश्शकश्च
सुरदारुपरं पराः ॥ ४६९ ॥ अम्ल-
वेतसमृद्धीका महार्द्रमधुयष्टिका ।
शृङ्गीडुरालभामुस्तं विडङ्गं रक्तच-
न्दनम् ॥ ४७० ॥ जीरकञ्च सध-
न्याकं पलाद्धं चूर्णकं पृथक् । दासर-

सायणं प्रोक्तं नराणां हितकाम्यया
॥ ४७१ ॥ न चात्र परिहारोऽस्ति
विहाराहारयन्त्रणे । अन्नपानानि स-
र्वाणि भक्ष्यभोज्यानि यानि च ॥ ४७२
तानि प्रकृतिभेदज्ञो बुद्धिपूर्वं प्रदाप-
येत् । सर्वव्याधिहरञ्चैतत् स्वस्थास्व-
स्थहितं सदा ॥ ४७३ ॥

विधिपूर्वक शुद्ध किया हुआ पारा ८ तोले, मृत
लोहेका चूर्ण १६ तोले, ९६ तोले मिश्री, मैनाशिल,
शुद्ध गन्धक, शुद्ध हरिताल, कसीस, हींग, कूठ,
वच, खस, रसौत, खैरसार और जायफल इन संग
औषधियोंका चूर्ण आठ आठ तोले और लोहेके
समान पुटित कियाहुआ तथा शास्त्रोक्त विधिसे
मारा हुआ कृष्ण अन्नक ८ तोले लेकर सबको एकत्र
पीसकर ३० पल त्रिफलेके काथमे तथा १ प्रस्थ घृत
१ प्रस्थ अदरखके रस और नीचेलिखी औषधियो-
के काथमे डालकर विधिपूर्वक पकावे। काथकी औष-
धि-निसोते, चीता, हडसंहारी, जिमीकन्द, पुनर्नवा,
मेहूँ, विदारीकन्द, चावल, सहिजना, मुसळी, क्षीर-
मोरट, और शंखाहूली इन प्रत्येक औषधियोंको
आठ आठ तोले लेकर अलग अलग एक एक द्रोण
जलमे पकावे । जब पकते पकते जल आठवां भाग
बाकी रहजाय तब उतारकर छानलेवे । फिर इसमें
उपर्युक्त औषधिको पकावे । जब वह पककर शीतल
होजाय तब उसमे शहद ३२ पल एवं त्रिकुटा,
त्रिफला, सैधानमक, विड नमक, कालानमक, सुहागा,
जवाखार, देवदारु, अमलवेत, दाख, महामेदा, मुलै-
ठी, काकडाशिगी, धमासा, नागरमोथा, वायविडग,
लालचन्दन, जीरा और धनियाँ इन प्रत्येकका चूर्ण
दो दो तोले डालकर सबको एकजीव करलेवे । म-
नुष्योंके हितकी अभिलाषासे यह दास रसायन कही
गई है इसपर आहार विहारका कुछ परहेज नहीं है ।
सर्वप्रकारके भक्ष्य और भोज्य अन्नपानोको प्रकृतिके
भेदोको जानकर वैद्य बुद्धिपूर्वक देवे । यह रसायन
सब प्रकारके रोगोंको हरनवाली तथा रोगी और
निरोगी सबको हितकारी है ॥ ४६१-४७३ ॥

नागार्जुनलोह ।

नागार्जुनो मुनीन्द्रः शशास यल्लोह-
शास्त्रमतिगहनम् । तस्यार्थस्य स्मृ-

तये वयमेतद्विशदाक्षरैर्वक्ष्यामः॥४७४॥
 मेने मुनिः स्वतन्त्रे भूयः पाकं न पल-
 पञ्चकादवाक् । सुबहुप्रयासदोषाद्-
 ध्वञ्च न पलत्रयोदशकात्॥४७५॥तत्रा-
 यसि पचनीये पञ्चपलादौ त्रयोदश
 पलकांति । लोहात्रिगुणात्रिफलाग्राह्या
 षड्भिः पलैरधिका ॥ ४७६ ॥ मारण-
 पुटनस्थालीपाकास्त्रिफलैकभागसंपा-
 द्याः । त्रिफलाभागद्वितयं ग्रहणीयं
 लोहपाकार्थम् ॥४७७॥ सर्वत्रायः पुट-
 नायथेषां शरावसंख्यानाम् । प्रति-
 पलमेव त्रिगुणं पाकार्थं काथमादेय-
 म् ॥ ४७८ ॥ सप्तपलादौ भागे पञ्च-
 दशान्तेऽम्भसां शरावैश्च । त्र्याद्यैका-
 दशकान्तैरधिकं तद्वारि कर्तव्यम् ॥
 ४७९ ॥ तत्राष्टमो विभागः शेषः
 काथस्य यत्नतः स्थाप्यः । तेन हि
 मारणपुटनस्थालीपाका भविष्यन्ति
 ॥ ४८० ॥ पाकार्थं तु त्रिफलाभाग-
 द्वितये शरावसंख्यातम् । प्रतिपल-
 मम्बुसमं दद्यादधिकं द्वाभ्यां शरा-
 वाभ्याम् ॥ ४८१ ॥ तत्र चतुर्थो भा-
 गः शेषो निपुणैः प्रयत्नतो ग्राह्यः ।
 अयसः पाकार्थत्वात् स च सर्वस्मात्
 प्रधानतमः ॥ ४८२ ॥ पाकार्थमश्म-
 सारे पञ्चपलादौ त्रयोदशपलान्ते ।
 दुग्धशरावद्वितयं पादैरेकाधिकैरधि-
 कम् ॥ ४८३ ॥ पञ्चपलादिमात्रा त-
 दलाभे तदनुसारतो ग्राह्यम् । चतु-
 रादिकमेकान्तं शक्तावधिकं त्रयोद-
 शकात् ॥ ४८४ ॥ त्रिफलात्रिकटु-
 कचित्रकफान्तक्रामकविडङ्गचूर्णानि ।
 अन्यान्यपि दैयानि पलाशस्य
 च बीजानि॥४८५॥जातीफलजाति-
 कोषिलाकंकोलकलवङ्गानाञ्च । सित-

कृष्णजीरकयोरपि चूर्णान् पयसा स-
 मानि स्युः । त्रिफलात्रिकटुविडङ्गा
 नियता अन्ये यथाप्रकृति ॥ ४८६ ॥
 कालायसदोषहने जातीफलादेर्लव-
 ङ्गकांतस्य । क्षेपः प्राज्ञानुरूपः सर्व-
 स्योनस्य चैकाद्यैः ॥ ४८७ ॥ कान्ति-
 कामकमेकं निःशेषदोषमपहरत्यय-
 सः । द्विगुणत्रिगुणचतुर्गुणमाज्यं देयं
 यथा प्रकृति ॥ ४८८ ॥ यदि भेषजभू-
 यस्त्वं स्तोक्तत्वं वा तथापि चूर्णाना-
 म् । अयसासाम्यं संख्या भूयोऽल्प-
 त्वेन भूयोऽल्पा ॥ ४८९ ॥

नागार्जुनकपिने जो अत्यन्त गहन लोहशास्त्र कहा
 है, उसको अर्थकी स्मृतिके लिये हम यहां विशद रूप-
 से कहेंगे । नागार्जुनमुनिने अपने ग्रन्थमें पाँच पलसे
 पहिले अर्थात् २० तोलेसे कम लोहेका पाक करना
 नहीं कहा और प्रयागकी बाहुल्यताके दोषसे १३पल
 से ऊपर अर्थात् ५२ तोलेसे अधिक लोहेका पाक
 करना नहीं माना है । इसकारण लोहेका पाक कर-
 नेके लिये पाँचपलसे लेकर तेरहपल पर्यंत लोहा
 लेना चाहिये । तथा लोहेसे त्रिगुना और २४ तोले
 अविक त्रिफला लेवे । मारण, पुटन और स्थालीपाकके
 लिये त्रिफला एक भाग लेना चाहिये । लोहपाकके
 लिये त्रिफला दो भाग लेना चाहिये । और सर्वत्र
 लोहेका पुटनेके लिये एक शराव परिमाण त्रिफला
 लेवे, पाकके लिये प्रत्येक पलके हिसावसे त्रिगुना
 काथ डाले । सातपलसे लेकर पन्द्रह पलतक तीन
 शराव जल डालना चाहिये।तीनपलसे लेकर ग्यारह
 पलतक अधिक जल डालना चाहिये । जत्र पककर
 जल भाठवां भाग वाकी रहजाय तत्र उतारकर छान
 लेना चाहिये । उस काथके द्वारा मारण पुटन और
 स्थालीपाक करना चाहिये । पाकके लिये दो भाग
 त्रिफलेमें एक शराव परिमाण और दो शरावसे
 अधिकमें प्रत्येक पलके हिसावसे जल समान भाग
 डालना चाहिये । इसमें चौथाई भाग शेष काथको
 बुद्धिमान् वैद्य यत्नपूर्वक ग्रहण करे । लोहेका पाक
 यह सबमें प्रधान है । लोहेके पाकमें पाँच पलसे
 लेकर तेरह पलपर्यंत एक एक पादसे अधिक दो २

गराव दूध लेवे । पांचपलकी आदि मात्रा है । उसके अभावमें उसके अनुसार मात्रा ग्रहण करे । चारसे लेकर एकतक और शक्तिके अधिक होनेमें तेरह पर्यंत मात्रा जाननी । त्रिफला, त्रिकुटा, चीता, केशर, लोध और वायविडंग तथा ढाकके बीज, जायफल, जावित्री, इलायची, गीत-लचीनी, लौंग, सफेद जीरा और काला जीरा इन सबका चूर्ण दूधके बराबर लेवे । त्रिफला, त्रिकुटा और वायविडंग ये नियमानुसार लेनी चाहिये और अन्य औषधियाँ प्रकृतिके अनुसार लेवे । लोहेके दोषोंको दूर करनेके लिये जायफलसे लेकर लौंग पर्यंत सब औषधिया न्यूनाधिक मात्राका विचार करके डालनी चाहिये । केशर और लोध लोहेके सम्पूर्ण दोषोंको दूर करते हैं । लोहेसे दुगुना, तिगुना, अथवा चौगुना घृत प्रकृतिके अनुसार डालना चाहिये । जो औषधि अधिक हो और चूर्ण कम हो तो लोहेकेबराबर करना चाहिये ४७४-४८९ ॥

स्थालीपाकविधि ।

गजकर्णपत्रमूलैः शतावरीभृङ्गकेश-
राजरसैः ॥ आद्यस्थालीपाकं दद्यात्
प्रत्येकमेकं वा ॥ ४९० ॥

गजकर्णके पत्ते और जड़, शतावर, भागरा और कुकुरभांगरा इन प्रत्येकके रसके द्वारा प्रथम स्थाली-पाक करे ॥ ४९० ॥

त्रिफलांभृङ्गकेशरशतावरिकाकन्द-
माणसहजरसैः । भल्लातककरिकर्ण-
च्छदमूलपुनर्नवास्वरसैः ॥ ४९१ ॥

त्रिफलेका काय, भागरा, केशर, शतावर, मानकंद, पियावांसा, भिलावा, हस्तिर्कर्ण, पलाशके पत्ते जड़ और पुनर्नवेका स्वरस इनके द्वारा पुट देवे ॥ ४९१ ॥

सारस्वतघृत ।

समूलपत्रामुत्पाद्य ब्राह्मीं प्रक्षाल्य
वारिणा । उल्लखले क्षौदयित्वा रसं
वस्त्रेण गालयेत् ॥ ४९२ ॥ रसे चतु-
र्गुणे तस्मिन् घृतप्रस्थं विपाचयेत् ।
भेषजानि च पेप्याणि तत्रेमानि प्र-
दापयेत् ॥ ४९३ ॥ हरिद्रामलकं कुष्ठं
त्रिवृतां सहरातकीम् । एतेषां पलिका-

न् भागाञ्छेषांस्तु कार्षिकान्विदुः ॥
॥ ४९४ ॥ पिप्पल्योऽथ विडङ्गानि
सैन्धवं शर्करं वचा । सर्वमेतत्समा-
लोडय शनैर्मृद्वाग्निना पचेत् ॥ ४९५ ॥
एतत्प्राशितमात्रेण वाग्विशुद्धिश्च
जायते । सप्तरात्रप्रयोगेण श्रुतमा-
त्रन्तु धारयेत् ॥ ४९६ ॥ हन्त्यष्टा-
दशकुष्ठानि ह्यर्शांसि षड्विधानि च ।
पञ्चगुल्मान् प्रमेहांश्च कासं पञ्चविधं
जयेत् ॥ ४९७ ॥ वन्ध्यानाञ्चैव ना-
रीणां नराणामल्परेतसाम् । घृतं
सारस्वतं नाम वर्णायुर्बलवर्द्धनम् ४९८ ॥

जड़ और पत्तोंसमेत ब्राह्मीको उखाड़ कर जलसे धोकर ओखलीमें डालकर कूटे । फिर उसको वस्त्रमें छान लेवे पश्चात् चार प्रस्थ उसके रसमें एक प्रस्थ घृत डालकर पकावे । तथा कल्कके लिये उसमें हलदी, आमले, कूठ, निसोत और हरड ये प्रत्येक चार २ तोले, पीपल, वायविडंग, सैंधानमक, मिश्री और वच ये प्रत्येक एक २ तोला इन सब औषधियोंको पीसकर डाल देवे । फिर धीरे धीरे मंद मंद अग्निसे पकावे । इस घृतको सेवन करनेसे वाणी शुद्ध होती है । सात दिनतक पान करनेसे मनुष्य सुनते ही अनेक शास्त्रोंको धारण करता है । तथा अठारह प्रकारके कोढ़, छः प्रकारकी ववासीर, पांच प्रकारका गुल्म, प्रमेह और पांचोंप्रकारकी खाँसी दूर होती है, वंध्या स्त्री और अल्पवीर्यवाले मनुष्यों के यह सारस्वत घृत-त्रल, वर्ण और आयुको बढ़ाता है ॥ ४९२-४९८ ॥

गुडूच्यदिघृत ।

गुडूच्यपामार्गविडङ्गशंखिनी वचा-
शतावर्यभयामहौषधैः । घृतं विपक्वं
पिबतां प्रशस्तं वचस्तु येषां विकल-
श्च जल्पताम् ॥ ४९९ ॥

गिलोय, चिरचिटा, वायविडंग, शंखाहुली, वच, शतावर, हरड और सोठ इन औषधियोंके कल्कके द्वारा घृतको पकावे । यह घृत मनुष्योंको अत्यंत हित-कारी है कि, जो गद्गदवचन बोलते हैं ॥ ४९९ ॥

चतुष्कुवलयघृत ।

यत्कन्दनालदलकेसरवाद्धिपक्वं नीलो-
त्पलस्य तदपि प्रथितं द्वितीयम् ।
सर्पिश्चतुष्कुवलयं सहिरण्यपात्रं मे-
ध्यं गवामपि भवेत्किमु मानुषा-
णाम् ॥ ५०० ॥

नीलोत्पलका कंद, नीलोत्पलकी नाल, नीलोत्पलके
पत्र और नीलोत्पलकी केसर इनके कलकके द्वारा
उत्तम गायके घृतको पकावे । इस घृतको सुवर्णके
पात्रमे स्थापन करे । यह घृत गौओकी भी अत्यंत
मेधाको बढ़ाता है, फिर मनुष्योंकी तो वात ही
क्या है ॥ ५०० ॥

द्वितीय सारस्वतघृत ।

आजं पयः शृङ्गवेरं वचाशिग्रुहरीत-
की । पिप्पल्यो मरिचं पाठा सैन्धवं
दशमं घृतम् ॥ ५०१ ॥ शृङ्गवेरादयो
भागा लवणान्ताः पलाष्टकम् । चतु-
र्गुणेन पयसा घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥
॥ ५०२ ॥ एतत् प्राशितमात्रेण कि-
न्नरैः सह गीयते । जडगद्गदमूकत्वं
पानादेव प्रशाम्यति ॥ ५०३ ॥ न-
ष्टञ्च स्मरते ग्रन्थं श्रुतिश्चाप्युपजायते।
एतत्सारस्वतं नाम स्मृतिमेधाविव-
र्द्धनम् ॥ ५०४ ॥

वकरीका दूध, अदरख, वच, सहिजना, हरड,
पीपल, मिरच, पाठ, सैधानमक और घृत इन सबको
एकत्र करके पकावे । इसमें अदरखसे लेकर सैधान-
मकतक प्रत्येक औपधि कलकके लिये आठ आठ
पल लेवे । वकरीका दूध चार प्रस्थ और गायका
घृत एक प्रस्थ लेवे । इन सबको यथाविधिसे मिला-
कर घृतको पकावे । इस घृतको पान करनेमात्रसे
मनुष्य किन्नरोंके समान गायन करता है तथा जडता,
गद्गदपना और मूकता दूर होती है । नष्टस्मरणशक्ति-
वाले मनुष्य भी सुनते ही शास्त्रोंको धारण करते हैं ।
यह सारस्वतघृत-स्मरणशक्ति और मेधाको बढ़ाता
है ॥ ५०१-५०४ ॥

अष्टाङ्गमङ्गलघृत ।

मण्डूकीं सवचां सशंखकुसुमां सब्र-
ह्मसौवर्चलाम् । गुआं श्वेतवतीं शता-
वरियुतां ब्राह्मीं गुडूचीं तथा ॥ ५०५ ॥
पिष्ट्वांशैः पलिकैरिमानि विधिवद्ब्र-
व्याणि प्रस्त्रावणम् । सर्पिष्प्रस्थमथाढ-
केन पयसा युक्तिं पचेत्पाचनम् ॥ ५०६ ॥
नाम्नाष्टांगमिदं विदेहरचितं ख्यातं
पिबेद्यो घृतम् । स श्लोकस्य सहस्रमे-
कदिवसेनैवाखिलं धारयेत् ॥ अक्षी-
णाप्रतिहीनवारि मधुरस्पष्टाभिदायी
सदा । लोके शुक्रबृहस्पतीसमनृणां
पूज्यश्च नित्यं सदा ॥ ५०७ ॥

ब्रह्ममण्डूकी, वच, शंखाहुली, हुलहुल, सफेद
धुंधुची, शतावर, ब्राह्मी और गिलोय ये प्रत्येक औ-
पधि चार चार तोले लेकर सबका कलक बनाकर
एक प्रस्थ घृत और एक आठक दूधके साथ एकत्र
मिलाकर यथाविधिसे घृतको पकावे । यह अष्टांगना-
मकघृत-विदेह आचार्य्यने कहा है । इस घृतको
पान करनेसे एक दिनमें सहस्र श्लोकोंको धारण
करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है । तथा वह शुद्ध-
स्पष्ट और मधुर वाणीयुक्त होकर संसारमे शुक्र और
बृहस्पतिके समान बुद्धिमान् और पूजनीय होता है
॥ ५०५ ॥ ५०६ ॥ ५०७ ॥

पथ्यापथ्य ।

सतताध्ययनं वादः परतन्त्रावलोक-
नम् । सद्विद्याचार्य्यसेवा च बुद्धिमे-
धाकरो गणः ॥ ५०८ ॥

निरंतर पठना, शास्त्रसम्बन्धी वादविवाद, अन्या-
न्यशास्त्रोंका अवलोकन, सद्विद्याका धारण और
आचार्य्यों (गुरुजनो) की सेवा करना ये सब बुद्धि
और मेधाको बढ़ानेवाले विषय हैं ॥ ५०८ ॥

आयुष्यं भोजनं जीर्णं वेगानामविधा-
रणम् । ब्रह्मचर्य्यमहिंसा च साह-
सानाञ्च वर्जनम् ॥ ५०९ ॥

भोजनके जीर्ण होनेपर भोजन करना, मलमूत्रा-
दिके वेगोंको नहीं रोकना, ब्रह्मचर्य्य रखना, सर्वथा

हिंसाका त्याग, अत्यन्त और साहसके कामोंको न करना ये सब आयुको बढ़ानेवाले हैं । तथा रसायनके गुणोंको करते हैं ॥ ५०९ ॥

रसायनका विशेष फल ।

न केवलं दीर्घमथायुरश्नुते रसायनं यो विधिवन्निषेवते । गतिं स दिव्यां मुनिसेवितां शुभां प्रपद्यते ब्रह्म तथैव चाक्षयम् ॥ ५१० ॥

जो मनुष्य विधिपूर्वक अनेकप्रकारके रसायनोंको सेवन करता है, वह केवल दीर्घायुको ही प्राप्त नहीं होता, किन्तु वह मुनियोंकी दिव्यगतिको प्राप्त होकर अंतमें अक्षय ब्रह्मपदरूप मोक्षको प्राप्त होता है ॥ ५१० ॥

इति श्रीवंगसेने भापाटीकायां रसायननिदान-
चिकित्साधिकार समाप्त ॥ ७३ ॥

अथ वाजीकरणाधिकार ।

दूषितशुक्रके लक्षण ।

रक्तेन कुणपं श्लेष्मवाताभ्यां ग्रन्थि-
सन्निभम् । पूयाभं रक्तपित्ताभ्यां क्षी-
णं मारुतपित्ततः ॥ १ ॥ कृच्छ्राण्ये-
तान्यसाध्यन्तु त्रिदोषं मूत्रविद्धानि-
भम् । तेष्वद्याञ्छुक्रदोषांस्तान् स्ने-
हस्वेदादिभिर्जयेत् ॥ २ ॥

मनुष्योंका वीर्य रक्तके द्वारा दूषित होनेसे दुर्गन्धियुक्त, कफ और वातके द्वारा दूषित होनेसे ग्रन्थि-युक्त, रक्त-पित्तसे राधके समान, वातपित्तसे क्षीण और त्रिदोषसे मूत्र तथा मलके समान होता है। इनमें त्रिदोषजनित शुक्रदोष असाध्य और जेप कष्टसाध्य हैं। इनमें पहिले अर्थात् रुधिरसे दूषित आदि शुक्र-दोषोंको स्नेह और स्वेदादिके द्वारा जीते ॥ १॥ २ ॥

वाजीकरणकी चिकित्सा ।

क्रियाविशेषैर्मतिमांस्तथैवोत्तरवस्ति-
भिः । पाययेत्सरुजं सर्पिर्भिषक्शो-
णितशोषिणाम् ॥ ३ ॥

बुद्धिमान् वैद्य रुधिरसे दूषित हुए शोकितमनुष्यका जो शुक्रदोषमें रोगीको वमन विरेचनादि विशेषक्रिया और उत्तरवस्तिके द्वारा शुद्ध करके कूठके साथ घृतपान करावे ॥ ३ ॥

धातकीपुष्पखदिरदाडिमार्जुनसाधि-
तम् । कुणपाख्ये पिवेत्सर्पिः शालि-
सारादिसाधितम् ॥ ४ ॥

कुणपाख्य अर्थात् रुधिरसे दूषित शुक्रमें धायके फूल, खैर, अनार और अर्जुनके कल्क और काथके द्वारा सिद्ध कियाहुआ घृतपान करे। अथवा शालि-सारादिगणकी औषधियोंके द्वारा घृतको पकाकर सेवन करे ॥ ४ ॥

ग्रन्थिभूते पिवेत्सर्पिश्चित्रकोशीर-
हिंशुभिः । स्निग्धं वान्तविरिक्तञ्च
निरूहमनुवासितम् ॥ ५ ॥

ग्रन्थिभूत अर्थात् जिसका शुक्र कफवातसे ग्रन्थिके समान होजाय उसको चीता, खस और हींग इनके कल्कके द्वारा घृतको सिद्ध करके पान करना चाहिए तथा स्नेह, वमन, विरेचन, निरूहवस्ति अनु-वासन वस्ति और उत्तरवस्ति ये सब प्रयोग करे ॥ ५ ॥

दूषितआर्तवकी चिकित्सा ।

योजयेच्छुक्रदोषार्त्तं सम्यगुत्तरवस्ति-
ना । विधिमुत्तरवस्त्यन्तं कुय्यादार्त्त-
वशुद्धये ॥ ६ ॥ स्त्रीणां स्नेहादियुक्तानां
चतसृष्वार्त्तवार्त्तिषु । कुय्यात्कल्क-
म्मिमञ्चापि पथ्यानां वमनानि च ॥ ७ ॥

जिसप्रकार मनुष्योंका शुक्र वातादि दोषोंसे दूषित होता है, उसीप्रकार स्त्रियोंका आर्तव भी उपर्युक्त वातादि दोषोंसे दूषित होता है। उसमें उपरोक्त कुणप ग्रन्थि आदि सब लक्षण यथादोषानुसार होते हैं। शुक्रदोषको दूर करनेके लिये उत्तरवस्तिका उत्तम प्रकारसे प्रयोग करे और स्त्रियोंके आर्तवकी शुद्धिके लिये उत्तरवस्ति पर्यन्त समस्त विधि करनी चाहिये। स्नेहन, वमन, विरेचनादिसे युक्त स्त्रियोंके वात, पित्त, कफ और रुधिर इन चार प्रकारके आर्तवकी पीडामें वातादि दोषोंको हरने-

वाले द्रव्योंके कल्क, काथ और पिचुके द्वारा कमसे योनिको प्रक्षालन करे तथा वातादिनाशक काथ, कल्कसे घृतको सिद्ध करके निरुद्धवस्ति, अनुवासन-वस्ति आदिका प्रयोग करे । एवं स्नेह, वसन, विरेचनादि युक्त, उत्तरवस्ति देवे ॥ ६ ॥ ७ ॥

**ग्रन्थिभूते पिवेत्पाठां त्र्यूषणं वृक्ष-
काणि च ।**

ग्रन्थिके समान आर्त्तवमे पाठ, त्रिकुटा और कुठे-की छाल इनका काथ बनाकर पान करे ।

**दुर्गन्धे पूयसंकाशे मज्जातुल्ये तथा-
र्त्तवे ॥ ८ ॥ पिवेद्भद्रश्रियः काथं च-
न्दनकाथमेव च । शुक्रदोषहराणाञ्च
यथास्वमदधारणम् ॥ ९ ॥**

दुर्गन्धित, राधके समान और मज्जाके तुल्य आर्त्त-वमें चन्दन और लालचन्दनका काथ बनाकर पीवे । विशेष करके वातादि दोषोंसे दूषित आर्त्तवमे पूर्वोक्त वातादिदोषदूषितशुक्रके समान यत्न करे ॥ ८ ॥ ९ ॥

वाजीकरणप्रयोग ।

**योगैः समत्तैः सवृत्तैस्तैले पूपालिकां
पचेत् । तां भक्षयित्वा पीत्वाऽनु-
शर्करामधुना पयः । नरश्चटकवद्गच्छे-
च्छतवारं निरन्तरम् ॥ १० ॥**

पुष्टिकारक औषधियोंका चूर्ण करके अथवा पीपल, उड़द, गालिचावल आदिद्रव्योंका चूर्ण करके खुब वारीक बख्त्रमे छान लेवे । फिर उस चूर्णको पानीमे सानकर उसकी पूरी बनाकर घृत अथवा तेलमे पकावे उन पूरियोंको खाकर ऊपरसे मिश्री और शहद मिला दूध पीवे । इससे मनुष्य निरन्तर चिडेके समान सौवार स्त्रियोंमे गमन करता है ॥ १० ॥

**चूर्णं विदार्याः सुकृतं स्वरसेनैव
भावितम् । सर्पिः क्षौद्रयुतं लीढ्वा
दश गच्छेन्नरोऽङ्गनाः ॥ ११ ॥**

विदारीकंदके चूर्णको विदारीकंदके स्वरसमें भावना देकर घी और शहदमें मिलाकर सेवन कर-नेसे मनुष्य दश स्त्रियोंमें गमन करता है ॥ ११ ॥

**एवमाभलकञ्चूर्णं स्वरसेनैव भावित-
म् । शर्करामधुसर्पिभ्यां युक्तं लीढ्वा
पयः पिवेत् । एतेनाशीतिवर्षोऽपि
युवेव परिहृष्यते ॥ १२ ॥**

इसीप्रकार आमलोंके चूर्णको आमलोंके रसमें भावना देकर मिश्री, शहद और घीमें मिलाकर खाय और ऊपरसे दूध पीवे । इससे अम्सीवर्षका वृद्ध मनु-ष्य भी युवाके समान स्त्रियोंमे रमण करता है ॥ १२ ॥

**विदारीकन्दकल्कञ्च वृतेन पयसा
नरः । उदुम्बरसमं खादेद् वृद्धोऽपि
तरुणायते ॥ १३ ॥**

विदारीकन्दका कल्क बनाकर उसको एक तोला परिमाण घृत और दूधके साथ सेवन करनेसे वृद्ध मनुष्य भी तरुणके समान आचरण करता है ॥ १३ ॥

**अथतथफलशुङ्गाग्रमूलं त्वग्निः शृतं
पयः । पीत्वा सशर्करञ्चैव वृद्धोऽपि
तरुणायते ॥ १४ ॥**

पीपलवृक्षके फल, अंकुर, मूल और छालको दूधमें औटाकर उसमे मिश्री डालकर पान करनेसे वृद्धमनु-ष्य भी तरुणके समान आचरण करता है ॥ १४ ॥

**स्वयंगुप्ताखलसयोर्वीजचूर्णं सशर्क-
रम् । धारोष्णेन नरः पीत्वा पयसा
न क्षयं व्रजेत् ॥ १५ ॥**

कौंठके बीज और खसखसके बीजोंके चूर्णको धारोष्णदूधके साथ मिश्री मिलाकर पान करनेसे कदापि वीर्यक्षय नहीं होता ॥ १५ ॥

**माषाणां पलमेकान्तु संयुक्तं मधुस-
र्पिषा । तं लीढ्वानुपिवेत् क्षीरं तेन
वाजी भवेन्नरः ॥ १६ ॥**

उड़दका चूर्ण तोलाभर लेकर शहद और घीमें मिलाकर सेवन करे और ऊपरसे दूधका अनुपान करे तो उत्तम वाजीकरण होता है ॥ १६ ॥

**कर्षं मधुकचूर्णन्तु घृतक्षौद्रसमन्वि-
तम् । पयोऽनुपानं यो लिह्यात्स गच्छे-
दश चाङ्गनाः ॥ १७ ॥**

मुलैठीके चूर्णको १ तोला परिमाण लेकर - शहद और घीमें मिलाकर सेवन करे और ऊपरसे दूध पीवे तो दश स्त्रियोंमें गमन करनेकी सामर्थ्य उत्पन्न होती है ॥ १७ ॥

**गृष्टीनां वृद्धवत्सानां माषवर्णभृतां
गवाम् । यत्क्षीरं तत्प्रशंसन्ति बल-
कामेषु जन्तुषु ॥ १८ ॥**

एकवार व्याईहुई, जिसका बछड़ा बड़ा हो और जो उदरोंके रंगके समान काली हो ऐसी गायका दूध पुरुषोंके बल और कामशक्तिके बढ़ानेमें अत्यंत श्रेष्ठ है ॥ १८ ॥

पूपालिका ।

**शर्करायास्तुलैकं स्यादेकं गव्यस्य
सर्पिषा । पत्तवा पूपालिकां खादेद्ब्रह्मचः
स्युर्यस्य योषितः ॥ १९ ॥**

उत्तममिश्री १ तुलापरिमाण और गायका वी १ तुलापरिमाण लेवे । इनमें उदरोंका चूर्ण अथवा अन्यान्य पुष्टिकारक औषधियोंका चूर्ण मिलाकर पूरी बनावे । अथवा केवल मिश्री और घृतकी पूरी बनावे । यह पूरी वह मनुष्य खाय जिसके घरमें १०० स्त्रियें हो ॥ १९ ॥

रसाला ।

**दध्नोऽर्धाढकमीषदम्लमधुरं खण्डस्य
चन्द्रद्युतेः प्रस्थं क्षौद्रपलं पलञ्च ह-
विषः शुण्ठ्याश्चतुर्माषकम् ॥ अक्षार्धं
मरिचाद्विडङ्गत इह द्वौ माषकावे-
कतः कृत्वा शुक्लपटाच्छनैः करतले-
नोन्मथ्य विस्त्रावयेत् ॥ २० ॥ मृद्भा-
ण्डे मृगनाभिचन्दनरसस्पृष्टेऽगुरौ धू-
पिते । कर्पूरेण सुगन्धितां तदखिलां
संलोडय संस्थापयेत् ॥ यः पीतो
मधुरस्वरेण सुरसा सेयं रसाला त-
था । ख्याता मन्मथदीपनी सुखकरी
कान्तेव नित्यं प्रिया ॥ २१ ॥**

किंचित् अम्ल और मधुर ऐसा उत्तम दही अर्ध आढकपरिमाण, चन्द्रमाकी कातिके समान उज्ज्वल खौंड १ प्रस्थ, शहद ४ तोले, घृत ४ तोले, सौंठका चूर्ण ४ मासे, कालीमिरच ६ मासे और वायविडंग २ मासे लेवे ।

इन सबको एकत्र मिलाकर एक उत्तम सफेद वस्त्रमें अच्छे प्रकारसे मथकर छान लेवे । फिर उसको कपू रके द्वारा सुवासित करके और अच्छेप्रकार आलो डन करके कस्तूरी और चंदनसे लिप्त तथा अगरस धूपित किये हुए मिट्टीके पात्रमें भरकर रखदेवे । जो मनुष्य मधुरस्वरसे धीरे धीरे इस सुरस रसालेको पान करता है, उसके कामोद्दीपन होता है और सुख करता है । इस लिए यह रसाला इसको स्त्रीके समान नित्यप्रिय होता है ॥ २० ॥ २१ ॥

बृहदश्वगन्धाद्यघृत ।

**शुभेऽह्नि देशसंभूतं पलशतं सम्यग-
श्वगन्धायाः । पुण्येऽहनि संक्षुण्णं द्रो-
णेऽम्भसि पचेत् सुविद्वान् ॥ २२ ॥
ज्ञात्वाष्टभागशेषं गृहीयात्तद्रसं सुप-
रिपूतम् । द्वे चैवात्र पलशते दद्या-
च्छागस्य शुद्धमांसस्य ॥ २३ ॥ सर्पिः
प्रस्थमथैकं मेध्यं गोपयश्चतुर्गुणं द-
द्यात् । कल्कानक्षसमांशानूर्ध्वमतः
संप्रवक्ष्यामि ॥ २४ ॥ काकोली द्वे
मृद्धी द्वे मेदे जीवकं स्वयंगुताम् ।
ऋषभकमेलां मधुकं मृद्धीकां शूर्प-
पर्णिञ्च ॥ २५ ॥ जीवन्तीं सोपकुल्यां
बलां विदारीं शतावरीश्चापि । द-
त्त्वा सम्यग्विपचेत्सर्पिरयोद्धृत्य पी-
त्वा च ॥ २६ ॥ मधुशर्करयोः कुडवं
दत्त्वा भाण्डे स्थितं मृदितम् ।
लीङ्गा तत्पाणितलं यथेष्टाहारमश्नी-
यात् ॥ २७ ॥ क्षीणक्षतशिशुवृद्धाः
क्षीणेंद्रिया हीनमांसाश्च । प्राश्य प्रा-
प्त्युः सद्यो पुष्टिबलारोग्यतेजांसि ॥
॥ २८ ॥ उपयुज्य सर्पिरेतत्सप्ततिवर्षो-
ऽपि युवेव सो भूत्वा । बहुशः स्त्रियो
ऽभिगच्छेत् न चात्र शुक्रक्षयं लभते
॥ २९ ॥ पुत्रार्थिनी च नारी लभते
पुत्रान् वयस्यतीतेऽपि । वंध्यापि
लभते पुत्रं प्रयोगादश्वगन्धायाः ॥ ३० ॥**

उपयुक्ते यः पुरुषस्त्रिमासं सार्धमासं
वा । नारीशतं स गच्छेन्नैव भजेद्यो-
षितां नृप्तिम् ॥ खालित्यवलीपलितै-
र्न चास्य देहोऽभिभूयते क्षिप्रम् ॥३१॥
वातव्याधिभिरार्त्तास्तथैव हृद्धस्तिशू-
लार्त्ताः । भुञ्जानाः सर्पिरिदं नरा
निरोगा भवन्तीह ॥ ३२ ॥ एवं जग
द्वितार्थं सर्पिरिदं वाजिगन्धायाः ।
श्रेष्ठं वाजीकरणं निर्दिष्टं पूर्वमश्वि-
भ्याम् ॥ ३३ ॥

उत्तम देशमें उत्पन्न हुई और शुभ दिनमें उखाड़ी
हुई असगंधको सौ पल लेकर शुभदिनमें कूटकर एक
द्रोण जलमें पकावे । जब पकते पकते जल आठवा
भाग बाकी रहे तब उतार कर छान लेवे । फिर इस
काथमे बकरेका शुद्ध मांस २०० पल, गायका उत्तम
घृत १ प्रस्थ, गायका दूध ४ प्रस्थ तथा काकोली,
क्षीरकाकोली, दाख, भेदा महाभेदा, जीवरु, कौष्ठ,
ऋपभक, इलायची, मुलैठी, कालीदाख, हस्तिकर्ण,
पलाश, जीवती, पीपल, खिरैटी, विंदारीकंद और गता-
वर इन प्रत्येक औषधियोंका कलक एक २ तोला इन
सबको यथाविधिसे मिलाकर अच्छेप्रकारसे घृतको
पकावे । जब स्वयं शीतल होजाय तब इसमें शहद
और मिश्री एक एक कुडव परिमाण मिलाकर एक
चिकनेमिट्टीके वासनमे भरकर रख देवे । प्रतिदिन
इसमेसे एक तोला परिमाण लेकर खाय और इसके
ऊपर यथेष्ट आहार करे । यह अश्वगन्धाघृत-क्षीण,
क्षत, बालक, वृद्ध, क्षीणेन्द्रिय और हीनमासवाले
मनुष्योंके तत्काल पुष्टि, बल, पराक्रम और आरो-
ग्यताको करता है । इस घृतको सेवन करनेसे सत्तर
वर्षका वृद्ध भी युवाके समान होजाता है तथा बहुतसी
स्त्रियोंमें गमन करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है और
कदापि वीर्यक्षय नहीं होता । पुत्रकी इच्छा करने
वाली स्त्री अवस्था बीतजानेपर भी पुत्रोको उत्पन्न
करती है । इस अश्वगन्धाघृतका प्रयोग करनेसे
बन्ध्यास्त्री भी पुत्रको उत्पन्न करती है । जो मनुष्य
इस उत्तम औषधिको डेढ़ महीने पर्यंत अथवा
तीनमहीनेतक सेवन करता है वह सौ स्त्रियोंमें गमन
करता है और कदापि उसको स्त्रियोसे तृप्त नहीं
होती तथा खालित्य वली और पलित्तादि रोगोंसे

कभी पीडित नहीं हाता । तथा वात रोगसे
पीडित एवं हृदयशूल और वन्तिशूलवांल रोगों
इसको सेवन करनेसे शीघ्र निरोगी हो जाने है ।
इस श्रेष्ठ वाजीकरण अश्वगन्धाघृतको जगतके टितके
लिये पूर्वकालमें अश्विनीकुमारोंने निर्माण किया
है ॥ २२-३३ ॥

अश्वगन्धादि घृत ।

अश्वगन्धाप्रस्थमेकं दुग्धश्चैवाढकं द्वय-
म् । घृतप्रस्थमिदं दद्याच्छनेर्मृद्वाग्नि-
ना पचेत् ॥ ३४ ॥ त्रिकटुकं चतुर्जातं
विडङ्गं जातिपत्रकम् । बला चाति-
बला चैव श्वदंष्ट्रा वृद्धदारुकम् ॥३५॥
पलैकश्च प्रदातव्यं लोहं वङ्गं तथाभ्र-
कम् । प्रस्थाद्धं माक्षिकं दद्यात्प्रस्था-
र्धं शर्करा शुभा ॥ ३६ ॥ सर्वमेत-
द्विनिःक्षिप्य स्निग्धे भाण्डे निधाप-
येत् । द्वौ कालौ भक्षयेन्नित्यं समी-
क्ष्यान्निबलं यथा ॥ ३७ ॥ अर्घ्यं वातं
हनुस्तम्भं मन्यास्तम्भं कटिग्रहम् ।
शोषसन्धिगतं वातमास्थिभंगश्च गृध्र-
सीम् ॥ ३८ ॥ अग्निदोषश्च त्वग्दो-
षं पाददोषं तथैव च । गर्भप्रसवजा-
न्दोषानामगर्भस्रवाश्च यत ॥३९॥ पा-
ण्डुत्वमामवातश्च शुक्रदोषश्च षण्ठ-
ताम् । सर्ववाताग्निहन्त्येतद्यथा सिं-
हो गजानिव ॥ अश्वगन्धादिविख्या-
तं सर्ववातरुजापहम् ॥ ४० ॥

असगंध १ प्रस्थ, दूध २ आढक परिमाण और
उत्तम गायका घी १ प्रस्थ इन सबको एकत्र करके
मन्द मन्द अग्निसे धीरे धीरे घृतको पकावे । पश्चात्
इसमे त्रिकुटा, चातुर्जातक, वायविडंग, जावित्री,
खिरैटी, कंधी, गोखरू और विधारा इन प्रत्येकका
चूर्ण चार चार तोले तथा लोहा, वंग और अभ्रक
ये प्रत्येक चार २ तोले, शहद ३२ तोले और उत्तम
मिश्री ३२ तोले डालकर उतार लेवे । इसको एक
उत्तम चिकने वासनमे भरकर रखदेवे । अश्विका
बलावल विचारकर इसको प्रतिदिन प्रातःकाल और

संध्याके समय सेवन करे । यह अश्वगंधाघृत अर्दि-
तवात, वात, हनुस्तम्भ, रान्यास्तम्भ, कटिग्रह, शोप,
सन्धिगतवात, अस्थिभंग, गृध्रसी, अपिद्रोप, त्वचाके
विकार, पाद्द्रोप, गर्भजनितद्रोप, प्रसवके समयके वि-
कार, गर्भस्त्राव, पांडुता, आमवात, शुक्रद्रोप, नपुंसकता
और सर्वप्रकारके वातविकारोंको इस प्रकार दूर
करना है, जिस प्रकार सिंह हस्तियोंके समूहको नष्ट
करदेता है । यह अश्वगंधादि इस नामसे प्रसिद्ध
है और सर्वप्रकारके वातरोगोंको नष्ट करनेवाला
है ॥ ३४-४० ॥

शतावरीघृत ।

घृतं शतावरीगर्भं क्षीरे दशगुणे शृ-
तम् । रेतःशुद्धिकरं तच्च शस्तं चा-
प्यार्त्तवार्त्तिपु ॥ ४१ ॥

शतावरीके कल्कको दशगुने दूधमें डालकर घृतको
पकावे । यह शतावरीघृत-वीर्यको शुद्ध करनेवाला
और आर्त्तव आदिकी पीडामें हितकारी है ॥ ४१ ॥

वाजीकरण विधान ।

यद्द्रव्यं पुरुषं कुर्व्याद्वाजीव सुरतक्ष-
मम् । तद्वाजीकराख्यातं मुनिभि-
र्भिषजांवरैः ॥ ३३ ॥ ४२ ॥

जो द्रव्य पुरुषको घोंडेके समान मैथुन करनेकी
शक्तिको देवे, उसको वाजीकरण कहते हैं ॥ ४२ ॥

नपुंसकत्वकथन ।

क्लीवः स्यात्सुरताशक्तस्तद्भावः क्लै-
व्यमुच्यते । तच्च सप्तविधं प्रोक्तं नि-
दानं तस्य कथ्यते ॥ ४३ ॥

जो पुरुष स्त्रीके साथ मैथुन करनेमें असमर्थ हो
अर्थात् मैथुनके समय जिसका लिंग नहीं उठे, उसको
क्लीव (नपुंसक) कहते हैं । उस क्लीवतायुक्तको क्लैव्य
कहते हैं वह क्लीव सातप्रकारका है । अब उसका
पृथक् २ निदान कहते हैं ॥ ४३ ॥

तैस्तैर्भावैरहवैस्तु रिरंसोर्भनासि कृ-
ते । ध्वजः पतत्यतो नृणां क्लैव्यं समु-
पजायते ।

कामी पुरुषके चित्तको अप्रिय लगनेवाले भय,
शोक, क्रोधादिकारणोंके द्वारा मनमें क्षोभ होनेसे

लिंग गिथिल होजाता है अर्थात् उठतानहीं तब मैथुन
करनेकी शक्ति नहीं रहती, उसको नपुंसक कहते हैं ।

द्वेष्यस्त्रीसंप्रयोगाच्च क्लैव्यं तन्मानसं
स्मृतम् ॥ ४४ ॥

जो मनुष्य स्त्रीसंगसे द्वेष करे अर्थात् जिसको
विषयवासना बुरी लगे उसको मानसक्लीव कहते
हैं ॥ ४४ ॥

अत्रैरम्लोष्णलवणैरतिमात्रेण सेवि-
तैः । सौम्यधातुक्षयो दृष्टः क्लैव्यं त-
स्मात्प्रजायते ॥ ४५ ॥

खट्टे, गरम और नमकीन खार आदि अन्नको
अधिक सेवन करनेसे पित्त अतिशय बढ़कर सोमधा-
तुका क्षय करदेताहै तब वह मनुष्य नपुंसक होजाता
है उसको पित्तजननपुंसक कहते हैं ॥ ४५ ॥

अतिव्यवायशीलो यो न च वाजी-
क्रियारतः । ध्वजभङ्गमवाप्नोति स
शुक्रक्षयहेतुकम् ॥ ४६ ॥

जो मनुष्य अधिकतर मैथुन करता है और वाजी-
करण पदार्थोंको सेवन नहीं करता, उनके अधिकशुक्र
क्षय होनेके कारण जो नपुंसकता होती है, उसको
ध्वजभंग नपुंसक कहते हैं ॥ ४६ ॥

महता मेद्दरोगेण चतुर्थी क्लीवता भ-
वेत् । वीर्यवाहिशिराच्छेदान् मेह-
नानुन्नतिर्भवेत् ॥ ४७ ॥

बहुत बड़े लिंगके होनेके कारण जो क्लीवता
होती है, उसको चाथा नपुंसक कहते हैं और वीर्य-
वाहिनी नसोंके कटजानेसे जो लिंगकी चैतन्यता नष्ट
होजाती है अर्थात् खड़ा नहीं होता उसको पंचम
क्लीव कहते हैं ॥ ४७ ॥

बलिनः क्षुब्धमनसो निरोधाद् ब्रह्म-
चर्यतः । षष्ठं क्लैव्यं स्मृतं तत्तु शुक्र-
स्तम्भनिमित्तकम् ॥ ४८ ॥

बलवान् पुरुषके मनके क्षुब्ध होनेसे या मैथुन
करनेके वेगको रोकनेसे अथवा शुक्रका स्तम्भन कर-
नेके लिए ब्रह्मचर्य धारण करनेसे वीर्यके रुकनेके
कारण जो नपुंसकता होती है उसको षष्ठ क्लीव
कहते हैं ॥ ४८ ॥

जन्मप्रभृति यत् क्लैब्यं सहजं तद्धि स-
प्तमम् ॥ ४९ ॥

जो जन्मसे ही नपुंसक होता है उसको सप्तम सहज क्लैब कहते हैं ॥ ४९ ॥

असाध्यं सहजं क्लैब्यं मर्मच्छेदाच्च
यद्भवेत् । साध्यानामवशिष्टानां का-
र्यो वाजीकरो विधिः ॥ ५० ॥

इन सब नपुंसकोमे सहज और मर्मच्छेदी ये दो असाध्य हैं, बाकी सब साध्य हैं । इस कारण पूर्वोक्त दोनोंको त्यागकर जोप साध्योकी वाजीकरण विधिसे चिकित्सा करे ॥ ५० ॥

नरो वाजीकरान्धत्ते सम्यक्छुद्धो
निरामयः । आसप्ततिं प्रकुर्वीत व-
र्षादूर्ध्वन्तु षोडशात् ॥ ५१ ॥ न तु
वै षोडशादूर्वाक् सतत्याः परतो
न च । आयुष्कामो नरः स्त्रीभिः
संयोगं कर्तुमर्हति ॥ ५२ ॥

जो निरोगी मनुष्य उत्तम प्रकारसे शुद्ध होकर वाजीकरण औषधियोंको सेवन करता है उसको १६ वर्षसे लेकर ७० वर्षकी अवस्था पर्यन्त विधिपूर्वक स्त्रीप्रसंग करना चाहिये । आयुकी कामना करनेवाले मनुष्यको सोलह वर्षकी अवस्थासे कम और सत्तर वर्षकी अवस्थासे ऊपर कदापि स्त्रीप्रसंग नहीं करना चाहिए ॥ ५१ ॥ ५२ ॥

शुष्कं रूक्षं तथा काष्ठं जन्तुकीटवि-
जर्जरम् । धृतमाशु विशीर्येत तथा
वृद्धः स्त्रियं व्रजन् ॥ ५३ ॥

जिसप्रकार कीड़े मकोड़े आदिकोके खानेसे जर्जर हुआ, या घुना, पुराना और रूखा सूखा काठका टुकड़ा पृथिवीपर डालनेसे तत्काल खण्ड खण्ड हो जाता है उसी प्रकार वृद्ध मनुष्य स्त्रीमे गमन करने पर तत्काल शिथिल होकर विशीर्ण होजाताहै ॥ ५३ ॥

शोथकासज्वरार्शासि स्वरकार्श्या-
तिपांडुताः । अतिव्यवायाज्जायन्ते
रोगाश्च क्षयकादयः ॥ ५४ ॥

अत्यंत मैथुन करनेसे शोथ, खांसी, ज्वर, बवासीर, स्वरभंग, कृशता, पाण्डुता और क्षयादिकरोग उत्पन्न होते हैं ॥ ५४ ॥

आयुष्मन्तो मन्दजरा वपुर्वर्णवला-
न्विताः । स्थिरोपचितमांसाश्च भव-
न्ति स्त्रीषु संयताः ॥ ५५ ॥ त्रिभि-
ध्विभिरहोभिश्च सेवेत प्रमदां नरः ।
सर्वक्षुण्णु नरो ग्रीष्मे पक्षाद्योपां भजेद्
बुधः ॥ ५६ ॥

आयुष्मान्, जरासे रहित, सुन्दर शरीर और सुन्दर वर्णवाले, बलवान, तथा स्थिर और दृष्टपुष्ट मनुष्य स्त्रीप्रसंगमें श्रेष्ठ होते हैं ऐसे मनुष्योको प्रत्येक ऋतुमें तीन २ दिनके पश्चात् और ग्रीष्मऋतुमें पन्द्रह दिनके बाद स्त्रीसेवन करना चाहिये ॥ ५५ ॥ ५६ ॥

ग्लानिः श्रमश्च दौर्बल्यं धात्विन्द्रिय-
बलक्षयः । क्षयवृद्ध्युपदंशाद्या रोगा-
श्चातीव दुर्जयाः ॥ अकालमरणश्च
स्याद्भजतः द्वियमन्यथा ॥ ५७ ॥

जो इस ऊपरलिखे क्रमको उलंघन करके अन्य-प्रकारसे स्त्रीप्रसंग करते हैं, उनके ग्लानि, श्रम, दुर्बलता, धातु और इन्द्रियोंके बलका नाश, क्षय, अण्ड-वृद्धि और अन्यान्य उपदंशादिक दुर्जयरोग, एवं अकालमरण प्रभृति अनेक घोर उपद्रव निश्चय ही प्राप्त होते हैं ॥ ५७ ॥

रजस्वलामकामाश्च मलिनामप्रिया-
मपि । वर्णवृद्धां वयोवृद्धां तथा व्या-
धिप्रपीडिताम् ॥ ५८ ॥ हीनांगीं ग-
र्भिणीं द्वेष्यां योनिदोषसमन्विताम् ।
स्वगोत्रांगुरुपत्नीं च तथा प्रव्रजताम-
पि ॥ सन्ध्ययोः पर्वकाले च नोपेया-
त्प्रमदां नरः ॥ ५९ ॥

रजस्वला, अकामा (जिसको मैथुनकी इच्छा नहीं हो), मलिन अंगवाली, अप्रिय, जो अपनेसे जातिमें बड़ी हो, अवस्थामे बड़ी, रोगसे पीडित, हीन अंगवाली, गर्भिणी, शत्रुकी स्त्री अथवा शत्रुता करनेवाली स्त्री, योनिदोषसे पीडित अर्थात् योनि-रोगवाली, अपने गोत्रमे उत्पन्न हुई, गुरुकी स्त्री और परिव्राजककी स्त्री (वैरागिन या संन्यासिनी) इनके साथ हितकी इच्छा करनेवाला मनुष्य कदापि मैथुन नहीं करे । तथा दोनों सध्या और पर्वके समय भी स्त्रीप्रसंग नहीं करना चाहिये ॥ ५८ ॥ ५९ ॥

रजस्वलां गतवतो नररयासंयनात्म-
नः । दृष्ट्यायुस्तेजसां हानिरधर्मश्च
ततो भवेत् ॥ ६० ॥

रजस्वलास्त्रीके साथ प्रसंग करनेमें दृष्टि, आयु,
तेजकी हानि होती है और महापाप होता है इस
कारण कदापि रजस्वलाके साथ प्रसंग नहीं करना
चाहिये ॥ ६० ॥

लिङ्गिनीं गुरुपत्नींश्च स्वगोत्रामथ
पर्वसु । वृद्धां वा सन्ध्ययोश्चापि गच्छे-
ज्जीवितसंक्षयम् ॥ ६१ ॥

परिव्राजककी स्त्री, वैरागिन या संन्यासिनी,
गुरुकी स्त्री, अपने गोत्रकी और वृद्धा स्त्री इनके साथ
प्रसंगकरनेसे तथा पर्वके दिन और सन्ध्याओंमें मैथुन
करनेसे जीवन नष्ट होता है ॥ ६१ ॥

वयोरूपगुणोपेतां तुल्यशीलकुलो-
द्भवाम् । अभिकामोऽभिकामाख्यां
हृष्टो हृष्टामलंकृताम् ॥ सेवेत प्रमदां
नित्यं वाजीकरणसेवनः ॥ ६२ ॥

समान अवस्था, समान रूप, समान गुण और
समान स्वभाववाली, तथा समान कुलमें उत्पन्न हुई,
स्वयं रमण करनेकी इच्छावाली, प्रसन्नचित्त और
आभूषणादिके द्वारा अच्छे प्रकारसे अपने शरीरको
अलंकृत करनेवाली स्त्रीको वाजीकरण औपधियोंको
सेवन करनेवाला, रमण करनेकी इच्छावाला और
प्रमन्नचित्त मनुष्य युक्तिपूर्वक सेवन करे ॥ ६२ ॥

स्नानं सशर्करं क्षीरं मांसभोक्ष्याणि
गौडकाः । सुजलं स्वप्नसेवा च व्य-
वायान्ते हितानि तु ॥ ६३ ॥

स्नान, मिश्रीमिला दूध, अनेक प्रकारके मांसके
भोजन, अनेकप्रकारके मिष्टान्न और पकाय अथवा
गुडके बने पदार्थ, शीतल जल और निद्रा ये सब
मैथुनके अतमे हितकारी है ॥ ६३ ॥

स्त्रीष्वक्षयं मृगयतां वृद्धानां च रिरं-
सताम् । क्लीबानामल्पशुक्राणां यो-
गा वाजीकरा हिताः ॥ ६४ ॥

जो अत्यन्त स्त्रीप्रसंग करनेसे क्षयको प्राप्त हो
गये है अथवा जो वृद्ध होनेपर भी स्त्रियोंको भोगनेकी
इच्छा करते हैं तथा नपुंसक और अल्पशुक्रवाले पुरुष
इनको वाजीकरणविधि अत्यन्त हितकारी है ॥ ६४ ॥

इक्षुरगोक्षुरकाः शतमूली वानरिना-
गबलातिबला च । चूर्णमिदं पयसा
निशि पेयं यस्य गृहे प्रमदाशतम-
स्ति ॥ ६५ ॥

तालमखाना, गोखुरु, शतावर, कौलिके बीज, गंगे-
रन, कंधी और खिरैटी इन सबको समान भाग
लेकर चूर्ण करके रात्रिके समय दूधके साथ वह
मनुष्य पीवे जिसके घरमें सौ स्त्री हो ॥ ६५ ॥

माक्षीकधातुमधुपारदलोहचूर्णं पथ्या
शिलाजतुविडङ्गवृत्तानि लिह्यात् ।
एकाधिविंशतिमहानि गदादितोऽ-
पि चाशीती कोऽपि रमयेत्प्रबलो
युवे च ॥ ६६ ॥

सोनामाखी, शहद, पारेकी भस्म, रससिन्दूर या
चन्द्रोदय, लोहचूर्ण, हरड, शिलाजीत, वायविडंगा
और घी इन सबको एकत्र मिलाकर २१ दिनतक
सेवन करनेसे व्याधियोंसे पीडित अस्सी वर्षका वृद्ध
भी प्रबल युवाके समान रमण करसकता है ॥ ६६ ॥

गधां विरूढवत्सानां सिद्धं पयसि
पायसम् । गोधूमैस्तत्सिताक्षौद्रसर्पि-
र्मिश्रं सुशीतलम् । भुक्तो वाप्यति-
जर्णिऽपि दशदारा व्रजत्यपि ॥ ६७ ॥

जिसका बछड़ा बड़ा हो ऐसी गायके दूधमें गेहूँ
का सत्व डालकर खीर पकावे । फिर उसमें शीतल
होजानेपर मिश्री, शहद, और घृत-मिलाकर सेवन
करनेसे अत्यन्त वृद्ध मनुष्य भी दश स्त्रियोंमें गमन
करता है ॥ ६७ ॥

पिप्पलीलवणापैतौ वस्ताण्डौ क्षीर-
सर्पिषा । साधितौ भक्षयेद्यस्तु स ग-
च्छेत्प्रमदाशतम् ॥ ६८ ॥

वकरके आंडोंको दूध और घृतमें पकाकर पश्चात्
पीपलका चूर्ण और कुछ थोडासा सैधानमक डालकर

सेवन करे तो सौ स्त्रियोंमें गमन करनेकी सामर्थ्य उत्पन्न होती है ॥ ६८ ॥

वस्ताण्डसिद्धं पयसि भावितानस-
कृत्तिलान् । यः खादेत्स नरो गच्छे-
त्स्त्रीणां शतमपूर्ववत् ॥ ६९ ॥

वकरके आंडोको दूधमें पकाकर पश्चात् उस दूधमें अनेकवार तिलोंको भावना देकर भक्षण करनेसे मनुष्य सौ स्त्रियोंमें गमन करता है ॥ ६९ ॥

कुलीरकूर्म्मनक्राणामण्डान्येवं हि
भक्षयेत् ॥ ७० ॥

इसीप्रकार कुलीर (केकडा), कूर्म्म (कलुवा) और नक्र (नाका) के अंडोको दूधमें पकाकर सेवन करनेसे भी उपर्युक्त गुण होता है ॥ ७० ॥

उच्चटाचूर्णमप्येवं क्षीरेणोत्तममुच्यते ।
शतावय्युच्चटाचूर्णं पेयमेव सुखां-
बुना ॥ ७१ ॥

दूधके साथ उच्चटाके चूर्णको सेवन करना अथवा शतावरी और उच्चटाके चूर्णको मन्दोष्ण पानीके साथ खाना चाहिये ॥ ७१ ॥

घृतलिप्तं माषविदलं दुग्धे सिद्धं सि-
तान्यसंयुक्तम् । मुक्तं तदेव कुरुते
शक्तिं रमणस्य शतयोषाम् ॥ ७२ ॥

उड़कोंकी पीठीको घीमें भूनकर दूधमें पकावे । फिर उसमें मिश्री और घृत डालकर सेवन करे तो सौ स्त्रियोंके साथ रमण करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है ॥ ७२ ॥

त्रिकण्टकात्मगुप्तानां बीजचूर्णं सश-
र्करम् । क्षीरेण यः पिबेद्गच्छेद्दशवा-
रं निरन्तरम् ॥ ७३ ॥

गोखरू और कौँछके बीजोंका चूर्ण करके मिश्री मिलाकर दूधके साथ सेवन करनेसे निरन्तर दशवार स्त्रियोंमें गमन करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है ॥ ७३ ॥

शतावरीघृत ।

घृतं शतावरीगर्भक्षीरे दशगुणेपचेत् ।
शर्करापिप्पलीक्षौद्रयुक्तं तद् वृष्य-
मुच्यते ॥ ७४ ॥

शतावरके कलरूको दशगुने दूधमें डालकर उसके साथ घृतको पकावे । फिर उसमें मिश्री, पीपलका चूर्ण और शहद मिलाकर सेवन करे तो अत्यन्त रमण करनेकी सामर्थ्य उत्पन्न होती है ॥ ७४ ॥

माषघृत ।

माषाणामात्मगुप्तानां बीजानामाढ-
कत्रयम् । जीवकर्षभर्को मेदे वीरा
वृद्धी शतावरी ॥ ७५ ॥ मधुकं चा-
श्वगन्धा च साधयेत् कुडवोन्मितम् ।
तमेवास्मिन्वृतप्रस्थे द्रव्याद्दशगुणं
पयः ॥ ७६ ॥ विदारिणो दशप्रस्थं
प्रस्थमिक्षुरकस्य च । दत्त्वा मृद्वाग्निना
साध्यं सिद्धं सर्पिर्निधापयेत् ॥ ७७ ॥
शर्करायास्तु गोक्षीर्याः क्षौद्रस्य च
पृथक् पृथक् । भागांश्चतुष्पलांश्चात्र
पिप्पल्याश्च द्वयं पलम् ॥ ७८ ॥ पलं-
पूर्वमतो लीढ्वा ततोऽन्नमुपयोजयेत् ।
यदीच्छेदक्षयं शुक्रं शेषसश्चोत्तमं
बलम् ॥ ७९ ॥

उड़द और कौँछके बीज तीन आठक परिमाण, जीवक, ऋपभक, मेदा, महामेदा, काकोली, वृद्धि, शतावर, मुलैठी और असगंध ये प्रत्येक औषधि एक एक कुडव परिमाण लेकर सबको भठगुने जलमें पकावे । जब पकते पकते जल चौथाई भाग बाकी रहजाय तब उतार कर छान लेवे । फिर उस काथमें घृत १ प्रस्थ, द्रव्योंसे दशगुना दूध, विदारी-कंदका स्वरस १० प्रस्थ और ईखका रस १ प्रस्थ इन सबको एकत्र करके मंद मंद अग्निसे पकावे । जब घृत सिद्ध होजाय तब उसमें मिश्री, वंशलोचन और शहद ये प्रत्येक सोलह सोलह तोले और पीपलका चूर्ण आठतोले डालदेवे । प्रथम चार तोला परिमाण लेकर खाय और ऊपरसे भात खाय । इससे वीर्यकी अपार वृद्धि होती है और लिंगमें अपूर्व बल उत्पन्न होता है ॥ ७५-७९ ॥

गोधूमाद्यघृत ।

गोधूमाच्च पलशतं निःकाथ्य सलि-
लाढके । पादावशेषे पूते च द्रव्या-

णीमानि दापयेत् ॥ ८० ॥ गोधूमं
युञ्जातफलं माषद्राक्षापरूषकम् ।
काकोली क्षीरकाकोली विदारी च
शतावरी ॥ ८१ ॥ अश्वगन्धा सख-
र्जूरा मधुकं त्र्यूषणं सिता । भल्लात-
कं चात्मगुप्ता समभागानि कारयेत्
॥ ८२ ॥ घृतप्रस्थं पचेदेवं क्षीरं दत्त्वा
चतुर्गुणम् । मृद्राग्निनाथ सिद्धेऽस्मिन्
द्रव्याप्येतानि निक्षिपेत् ॥ ८३ ॥
त्वगेला पिप्पली धान्यं कर्पूरं नागके-
शरम् । यथालाभं विनिक्षिप्य सिता-
क्षौद्रपलाष्टकम् ॥ ८४ ॥ दत्त्वेक्षुख-
ण्डमालोडय विधिवद्विनियोजयेत् ।
शाल्योदनेन भुञ्जीत पिवेन्मांसरसे-
न वा ॥ ८५ ॥ केवलं वा पिवेदस्य
पलमात्रं प्रयत्नतः । न तस्य लिङ्ग-
शैथिल्यं न च शुक्रक्षयो भवेत् ॥ ८६ ॥
बल्यं परं वातहरं शुक्रसंजननं
परम् । परमोजस्करश्चैव पुष्टिवर्णव-
लप्रदम् ॥ ८७ ॥ वातपित्तहरं वृष्यं
पित्तगुल्महरं परम् । मूत्रकृच्छ्रप्रश-
मनं वृद्धानां चापि शस्यते ॥ ८८ ॥
पलद्वयं तदाश्रीयाद्दशरात्रमताद्वितः ।
स्त्रीणां शतं च भजते पीत्वा ह्यनु-
पिवेत्पयः ॥ ८९ ॥ अश्विभ्यां निर्मि-
तं चैव गोधूमाद्यं रसायनम् ॥ ९० ॥
जलद्रोणे तु गोधूमकाथे तच्छेषमा-
ठकम् । युञ्जातकस्य स्थाने तु तद्गुणं
तालमस्तकम् ॥ ९१ ॥

गेहूँको १०० पल लकर एक आठक जलमे
पकावे जब पकते पकते जल चौथाई भाग बाकी
रह जाय तब उतार कर छान लेवे फिर इस छनेहुए
काथमें गेहूँका सत्व, युजातफल (इसके अभावमे
ताडका मस्तक लेना चाहिये), उडद, दाख, फालसे,
काकोली, क्षीरकाकोली, विदारीकन्द, शतावर, असगंध,
खजूर, मुलंठी, सोंठ, मिरच, पीपल, मिश्री भिलावे और

कौलके वीज इन सबका कल्क समान भाग, उत्तम
गायका घृत १ प्रस्थ और दूध ४ भाग डालकर मन्द
मन्द अग्निसे पकावे । जब घृत सिद्ध होजाय तब
इसमे दालचीनी, इलायची, पीपल, धनियां, कपूर और
नागकेशर ये सब यथालाभ अर्थात् जितने
इनमेसे मिलसके उतने तथा मिश्री और गहद प्रत्येक
आठ आठ पल डालकर ईखके डडेसे अर्थात् गन्नेके
टुकडेसे खुब अच्छे प्रकारसे आलोडन करके एक
उत्तम चिकने वासनमें भरकर रखदेवे । जो इसको
प्रतिदिन चार तोले परिमाण लेकर शालिचावलोंके
भातके साथ अथवा मांसरसके साथ सेवन करे
या केवल इसको अकेला ही सेवन करे तो उस मनु-
ष्यका लिंग कदापि गिथिल नहीं होता और न कभी
वीर्यक्षय होता है। यह घृत अत्यन्त बलकारक, वात-
नाशक, वीर्यजनक, परम ओजकारक, पुष्टिकर, वर्ण
और बलवर्द्धक, वातपित्तनाशक, वीर्यवर्द्धक पित्त-
गुल्मनाशक, मूत्रकृच्छ्रहारक और वृद्ध मनुष्योंको
अतीव हितकारी है । इसमेंसे प्रतिदिन आठ तोले
परिमाण लेकर दश दिनतक निरालस्य हांकेर सेवन
करे और ऊपरसे मिश्रीमिला दूध पीवे तो सौ स्त्रियों
में गमम करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है । यह गोधू-
माद्य रसायन अश्विनीकुमारोने निर्माण की है । यद्यपि
ऊपर पाठम सापल गेहूँको एक आठक जलमें पका-
कर चतुर्थांश शेप काथ रखना लिखा है, किंतु
यहा पर गेहूँको एक द्रोणजलमे पकाकर एक आठक
शेप जलमे रखनेकी आज्ञा ह, और युञ्जातफलके
अभावमे ताडका मस्तक प्रयोग करना लिखा
है ॥ ८०-९१ ॥

जीवन्तीयमक ।

जीवन्त्यतिबलामेदा-काकोलीद्वय-
जीरकैः । साभयातिकृता कृष्णा
काकनासारसायनैः ॥ ९२ ॥ स्व-
यंगुप्ता शटी शृङ्गी जीवकंशारिवा-
द्वयैः । सहाचरवराविश्वापिप्पली-
मूलभर्जनैः ॥ ९३ ॥ पिष्टैस्तैलं घृतं
पक्वं क्षीरेणाष्टगुणेन च । दत्तानुवा-
सनैर्ज्ञेयं शुक्राग्निबलवर्द्धनम् ॥ ९४ ॥
बृंहणं वातपित्तघ्नं गुल्मानाहहरं

परम् । नस्यैः पानैश्च संयुक्तसूर्ध्वजन्तु-
गदापहम् ॥ ९५ ॥

जीवन्ती, कंधी, मेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, जीरा, कालाजीरा, हरड, पीपल, कौवाठोडी, वाय-
विडंग, कौष्ठ, कचूर, कारुडागिगी, जीवक, दानो-
गारिवा, पियावाँसा, त्रिफला, सोंठ और पीपलामूल
इन सबको एकत्र घृतमें भूनकर कल्क बनाकर उसके
साथ तेल और घृतको अठगुने दूधमें पकावे ।
इसके द्वारा अनुवासन बरित देनेसे शुक, अग्नि और
बलकी वृद्धि होती है । तथा ये दोनों अत्यंत पुष्टि-
कारक, वातपित्तनाशक, गुल्म और आनाहको दूर
करनेवाले है । इसको नस्य और पान आदिमें प्रयोग
करनेसे ऊर्ध्वजन्तुरोग नष्ट होता है ॥ ९२-९५ ॥

गुडकूप्माण्ड ।

कूप्माण्डकात्पलशतं सुस्विन्नं निष्कु-
लीकृतम् । प्रस्थं च घृततेलस्य त-
स्मिन् तप्ते निधापयेत् ॥ ९६ ॥ त्वक्-
पत्रधान्यकव्योषजीरकैलाद्वयानलम् ।
पङ्कान्थाचव्यमातङ्गपिप्पलीशृङ्गवेर-
कम् ॥ ९७ ॥ शृंगाटकं कशेरुश्च प्र-
लम्बं तालमस्तकम् । चूर्णीकृतं पला-
न्यत्र गुडस्य तु तुलां पचेत् ॥ ९८ ॥
शीतीभूते पलान्यष्टौ मधुनः सं-
प्रदापयेत् । कफपित्तानिलहरं मन्दा-
श्रीनां च दीपनम् ॥ ९९ ॥ कृशानां
वृहणं श्रेष्ठं वाजीकरणमुत्तमम् । प्रम-
दासु प्रसक्तानां ये च स्युः क्षीणरे-
तसः ॥ १०० ॥ क्षयेण च गृहीतानां
परमं भेषजं मतम् । कासं श्वासं
ज्वरं हिक्कां हन्ति छर्दिमरोचकम् ॥
गुडकूप्माण्डकं ख्यातमश्विभ्यां समु-
दाहतम् ॥ १०१ ॥

उसीजे हुए और छिलेहुए पंठेके टुकड़े १०० पल,
त १ प्रस्थ, तेल १ प्रस्थ और गुड १०० पल इन
सबको एकत्र करके पकावे । जब पकते २ वे गाढे
जायें तब उनमें दालचीनी, तेजपात, धनियां, सोंठ,

मिरच, पीपल, जीरा, इलायची, बडो इलायची,
चींता, वच, चव्य, गजपीपल, अदरक, सिंघाडे,
कशेरु, ताडके अंकुर और ताडका मस्तक ये प्रत्येक
चार चार तोले लेकर चूर्ण बनाकर मिला देवे जब
पाक अपने आप शीतल होजाय तब उसमें आठ
पल गहद मिला देवे । यह उत्तम औषध-कफपित्त
वातनाशक, मदाग्निको दीपन करनेवाली, कृश मनु-
ष्योको अतीव पुष्टिकारक और उत्तम वाजीकरण है।
जो पुरुष स्त्रियोंमें आसक है, जो पुरुष क्षीण वीर्य
है और जो मनुष्य क्षयरोगसे पीडित है उनके लिये
यह परम उत्तम औषध है । इस गुडकूप्माण्डको
अश्विनीकुमारोंने निम्नीण किया है । यह खासी,
श्वास, ज्वर, हिचकी वमन और अरुचिको दूर
करता है ॥ ९६-१०१ ॥

यत्किञ्चिन्मधुरं स्निग्धं जीवनं तर्पणं
गुरुहर्षणं मनसश्चैव सर्वं तद्वृष्यमु-
च्यते ॥ १०२ ॥ अभ्यंगच्छादनस्नान-
नगन्धमाल्याविभूषणैः । गृहशय्या-
सनसुखैर्वासोभिर्विदितैः प्रियैः ॥ १०३ ॥
विहङ्गानान्तु तैरिष्टैः स्त्रीणां वाऽऽ-
भरणस्वनैः ॥ संवादनेैर्वस्त्रिणाभि-
ष्टानाश्च वृषायते ॥ १०४ ॥ सुरूपा
यौवनावस्था लक्षणैर्वा विभूषिता ।
या वश्या शिक्षिता चैव सा स्त्री
वृष्यतमा स्मृता ॥ १०५ ॥

जो पदार्थ मधुर, स्निग्ध, प्राणरक्षक, तृप्तिकारक,
भारी और मनमें आनंद उत्पन्न करनेवाले है, उन सब
को वृष्य कहते हैं । तैलादिककी मालिस, अनेकप्रकारके
वस्त्रोंका धारण, स्नान, सुगंधित चंदनादि पदार्थोंका
और पुष्पमालादि आभूषणोंका धारण, सुन्दर गृह,
सुन्दर वस्त्रों करके वेष्टित शय्या और आसन, मनो-
हर कोकिल मयूरादि पक्षियोंका कलरव, अथवा सुन्दर
मानिनी स्त्रियोंके आभूषणोंकी झनकार और प्रिय-
स्त्रियोंका सम्भाषण यह सब वृष्य अर्थात् कामोद्दी-
पक है । सुन्दर स्वरूपवान्, यौवन अवस्थाको प्राप्त
हुई, शुभलक्षणों करके विभूषित, अपने अनुकूल और
रतिकर्ममें शिक्षित ऐसी स्त्री वृष्य होती है ॥ १०२ ॥
॥ १०३ ॥ १०४ ॥ १०५ ॥

वीर्यक्षयके कारण और लक्षण ।
जरया चिन्तया शुक्रं व्याधिभिः कर्म-
कर्षणात् । क्षयं गच्छत्यनशनात्स्त्री-
णां चातिनिषेवणात् ॥ १०६ ॥ क्षया-
द्भ्रयादभिश्चम्भाच्छोकात्स्त्रीदोषकर्ष-
णात् । नारीणामरसज्ञत्वादाभिचारा-
दिसेवनात् ॥ १०७ ॥

जरा, चिंता और अनेकप्रकारकी व्याधियोंसे तथा
वमन विरेचनादि पंचकर्मोंके विगड जानेसे, उप-
वास करनेसे, अत्यन्त स्त्रीप्रसंगकरनेसे, क्षयसे, भयसे,
अविश्वाससे, शोकसे, स्त्रियोंके दोषोंको देखनेसे,
स्त्रियोंके अरसज्ञ (रसको नहीं जानना) होनेसे और
अभिचारसे मनुष्योंका वीर्य क्षयको प्राप्त होता
है ॥ १०६ ॥ १०७ ॥

दौर्बल्यं मुखशोषश्च पाण्डुत्वं मदनं
भ्रमः । क्लैब्यं शुक्रविसर्गश्च क्षीणशु-
क्रस्य लक्षणम् ॥ १०८ ॥

दुर्बलता, मुखशोष, पाण्डुता, शरीरका टूटना, भ्रम,
नपुंसकता और शुक्रका क्षरण होना ये सब क्षीण-
शुक्रवाले मनुष्यके लक्षण जानने ॥ १०८ ॥

इति श्रीवङ्गसंने भापाटीकायां वाजीकरणनि-
दानचिकित्साधिकार समाप्त ॥ ७४ ॥

अथ स्नेहपानाधिकारः ।



वमनं रेचनं नस्यं निरुद्धश्चालुवास-
नम् । ज्ञेयं पञ्चविधं कर्म विधानं त-
स्य कथ्यते ॥

वमन, विरेचन, नस्य, निरुद्धवस्ति और अनुवा-
सन वस्ती ये पंच कर्म हैं । अब इनके विधानको
कहते हैं ॥

आपो यथा विरुध्यन्ते स्निग्धाप्तान्ना-
दयत्नतः । तथा संशोधनद्रव्यैः स्नि-
ग्धकोष्ठात्कफं नयेत् ॥

जब स्निग्ध पानोंको कुविधिसे सेवन करनेसे शरी-
रका रस विगड जाय तब संशोधन द्रव्योंसे कोष्ठको
स्निग्धकरके कफको निकाले ॥

मलापहं रोगहरं बलवर्णप्रसादनम् ।
पीत्वा संशोधनं सम्यगायुष्मान्पू-
ज्यते चिरम् ॥

विविधपूर्वक संशोधनको करनेसे मल और रोगोका
नाश हाता है, बल और वर्णकी वृद्धि होती है तथा
आयु दीर्घ होती है ॥

कट्यरुजङ्घपादस्थे वाते स्नेहं विशे-
षतः । पिबेत्प्राग्भोजनाज्जन्तुः क-
ट्यार्दानां मलापहम् ॥

कटि, ऊरु, जंघा और पादस्थ वातरोगमें विशेष
करके भोजनसे पहिले मनुष्य स्नेहपान करे तो कटि
आदिकोका दोष दूर होता है ॥

पिबेत्संशोधनादूर्ध्वमूर्ध्वजम्बानिलेग-
दे । वलितेनेन्द्रियाणाश्च वैमल्यं चो-
पजायते ॥

ऊर्ध्वजन्तुरोगमें और वातके रोगोंमें संशोधनके
पीछे स्नेहको पान करे । इससे इन्द्रियोंमें बल तथा
विमलता उत्पन्न होती है । तथा पक्षाघात और हृद-
ययोग नष्ट होता है ॥

पक्षाघातं सहद्रागं सेव्यदानं निह-
न्ति च । सहान्नेनाशिनः स्नेहो बल-
वर्णकरः परः ॥

भोजनके साथ स्नेहको सेवन करनेसे पक्षाघात
और हृदयरोग नष्ट होता है तथा शरीरमें बल उत्पन्न
होता है और वर्ण सुन्दर होता है ॥

सोपानत्तलवौ कोष्ठे निराग्रे वीक्ष्य
पावकम् । पाययित्वा भिषक् स्नेहं
कटूष्णं वारि पाययेत् ॥

लघुकोष्ठ और आमरहित ऐसे रोगीके अग्निके
बलाबलको विचार कर बंध यथाविधिसे स्नेहपान
करावे और ऊपरसे गरम जल पिलावे ॥

यथादोषं यथाकालं यथाव्याधिर्यथा
बलम् । स्नेहं पक्वमपक्वं वा पाययित्वा
चिकित्सकः ॥

जसा दोष, जैसा काल, जैसा रोग और जैसा बल हो उसीके अनुसार वैद्य पक्क अथवा अपक्क स्नेहको पान करावे ॥

सर्पिः शरदि पातव्यं वसामज्जा च माधवे । तैलं प्रावृषि नात्युष्णं शति स्नेहं पिबेन्नरः ॥

मनुष्य शरदृतुमें घृत, वसन्तऋतुमें वसा आर मज्जा तथा वर्षाऋतुमें तैल और शीतऋतुमें अल्प उष्ण स्नेहको पान करे ॥

जलमुष्णं घृते पयं यूषस्तैलेषु शस्यते । वसामज्जानि मण्डस्तु सर्वेषूष्णमयांशु वा ॥

घृतके ऊपर उष्णजल पान करना चाहिए। तैलके ऊपर यूप तथा वसा और मज्जाके ऊपर मांडका अनुपान करे । अथवा सर्वप्रकारके स्नेहोंमें गरम जलका अनुपान करे ॥

ऋते भल्लातकस्नेहात्तत्र तोयं सुशीतलम् । त्रिकर्षादर्थकर्षेण वृद्धिः सार्धपलं तथा ॥ ततः कर्षाभिवृद्धिश्च भवेद्यावत्पलत्रयम् । ततोऽपि च पलाधेन वृद्धिर्यावच्च षट्पलम् ॥ मात्रेयं स्नेहपानस्य जघन्यामध्यमोत्तमाः ॥

भिलावेके तैलके ऊपर केवल शीतल जल ही पीना चाहिये । स्नेहकी प्रथम मात्रा तीन कर्षकी देवे। फिर क्रमसे आधा आधा कर्ष बढ़ाकर डेढ पलतक देवे। फिर एक एक कर्षसे बढ़ाकर तीन पलतक देवे । पश्चात् आधा आधा पल बढ़ाकर छ. पलतक देवे । यह स्नेहपानकी उत्कृष्ट मात्रा है । अर्थात् तीन कर्षकी जघन्य, तीन पलकी मध्यम और छ. पलकी उत्तम मात्रा जाननी ॥

एकाहसुत्तमा पेया त्रयहमेव तु मध्यमा । स्नेहमात्रा यथायोगं सप्ताहन्तु कनीयसी ॥

उत्तम मात्रा एक ही दिन पीनी चाहिये, मध्यम मात्रा तीन दिनतक पीनी चाहिये और जघन्यमात्रा एक सप्ताहतक सेवन करनी चाहिये ॥

अहारत्रेण महति जीर्यत्यद्वि तु मध्यमा । दिनार्थं चापरास्तिस्रः स्नेहमात्राः प्रमाणतः ॥

उत्तम मात्रा एक दिनरातमें पचजाती है, मध्यम मात्रा एक दिनमें पचजाती है और जघन्य मात्रा आधे दिनमें पचजाती है । इस प्रकार ये स्नेहकी तीन मात्राये कही हैं ॥

केवलं पैत्तिके सर्पिर्वातिके लवणान्वितम् । देयं बहुकफे तैलं व्योषक्षारसमायुतम् ॥

पित्तके रोगोंमें केवल घृतको पान करे, वातके रोगोंमें घृतको लवणके साथ पान करे और बहुतसे कफके रोगोंमें तैलमें जवाखार और त्रिकुटेका चूर्ण मिलाकर पान करे ॥

शीतकाले दिवास्नहमुष्णकाले पिबेन्नाश । वातपित्ताधिके रात्रौ वातश्लष्माधिके दिवा ॥

शीतऋतुमें दिनमें स्नेहपान करे, ग्रीष्मऋतुमें रात्रिमें स्नेहपान करे, वातपित्ताधिक्य रोगोंमें रात्रिके समय और वातकफके रोगोंमें दिनमें स्नेहपान करे ॥

पित्तेपित्तकफे चोष्णं स्नेहमूर्च्छातृषाकरम् । शीतं वातकफार्त्तस्य गौरवारुचिशूलकृत ॥

पित्तकफजरोगोंमें उष्ण स्नेहपान करनेसे मूर्च्छा और तृषा उत्पन्न होती है । वात आर कफके रोगोंमें शीतल स्नेह पान करनेसे शरीरमें भारीपन, अराच और शूल होता है ॥

र्युः पच्यमाने नृददाहभ्रमो मूर्च्छारुचिस्तमः । परिषिच्योऽप्यनुष्णाद्विर्जीर्णस्नेहो यतो नरः ॥ यवागूं प्राशयेदुष्णां कृतां षष्टिकतंडुलैः । अल्पस्नेहां विलेपीश्च जीर्णस्नेहे सुखोदनम् ॥

स्नेहके पचनेके समय तृषा, दाह, भ्रम, मूर्च्छा अरुचि और अंधकारदर्शन ये सब होते हैं । उस समय गरमजलसे शरीरको धोवे और ज्वर अच्छे प्रकारसे स्नेह पचजावे तब साठोंके चावलोकी यवागू बनाकर गरम गरम देवे । अथवा थोडासा घृत डाल कर विलेपी देवे किवा सुहाता सुहाता भात देवे ।

वृद्धस्य स्नेहसिद्धेन यूषेनाल्पश्रुतेन वा । पिवेत्संशमनं स्नेहमन्नकाले प्रकाङ्क्षितम् ॥ सिद्धार्थं पुनराहारे नैशे जीर्णं पिवेन्नरः ॥

वृद्धमनुष्यको स्नेहके द्वारा सिद्ध किया हुआ और अल्प पकाया हुआ ऐसा यूप अथवा संशमनस्नेह भोजनकी आकांक्षाके समय पान करावे । फिर शुद्धिके लिये रात्रिके समय आहारके जीर्ण होनेपर स्नेहको पान करे ।

स्नेहसात्म्यः क्लेशसहश्चोष्णकाले न शीतले । अच्छमेव पिवेत्स्नेहमच्छ-पानं हि शोभनम् ॥

स्नेहपान-सात्म्य (जिसके प्रकृतिके अनुकूल हो) और क्लेशको सहन करनेवाला पुरुष ऐसे समय स्नेहको सेवन करे कि, न तो ज्वर अत्यंत शीत हो और न अत्यंत गरमी हो । स्वच्छनिर्मल स्नेहको पान करे, क्योंकि स्वच्छ स्नेह ही श्रेष्ठ होता है ॥

द्रवोष्णमनभिष्यन्दि भोज्यमन्नं प्रमाणतः ॥ नातिस्निग्धमसंकीर्णं सुस्नेहं पातुमिच्छता ॥

स्नेहको पान करनेकी इच्छा करनेवाला पुरुष द्रव (पतला), उष्ण, अभिष्यन्दरहित, प्रमाणका, न अत्यंत स्निग्ध और न बहुतसे एकत्र मिले हुए भोज्य पदार्थोंवाले अन्नका भोजन करे ॥

पिवेत्त्र्यहं चतुरहं पश्चाहं षडहानि वा । सप्तरात्रात्परं स्नेहं सात्म्यभावाय कल्पते ॥

स्नेहपान तीन दिनतक, चार दिनतक, पाँच दिनतक अथवा छः दिनतक करे, क्योंकि फिर सात दिनके पश्चात् स्नेह स्वभावमें मिल जाता है ॥

मृदुकोष्ठस्त्रिरात्रेण स्निह्यत्यच्छोपसे-वया । स्निह्यति क्रूरकोष्ठस्तु सप्तरात्रेण मानवः ॥

मृदुकोष्ठवाला मनुष्य तीन दिनतक स्नेहको पीनेसे स्निग्ध होजाता है और क्रूरकोष्ठवाला मनुष्य सात-दिनमें स्निग्ध होजाता है ॥

मिथ्याचाराद्बहुत्वाद्वा यस्य स्नेहो न जीर्यते । विष्टभ्य वापि जीर्येत वारिणोष्णेन वामयेत् ॥ ततः स्नेहं पुनर्दद्यालघुकोष्ठाय देहिने ॥

मिथ्या आचरण करनेसे अथवा स्नेहकी बाहुल्य तासे जिसके स्नेह नहीं पचता है अथवा जिसके विष्टभ्य होकर अर्थात् पेटमें गुडगुड शब्द होकर स्नेह पचता है उसको गरम जल पिलाकर वमन करावे । और लघुकोष्ठवाले मनुष्यको फिर स्नेह पान करावे ॥

स्नेहाऽजीर्णविशंकायां पुनरुष्णोदकं पिवेत् । तदोद्धारो भवेच्छुद्धो रुचि-रत्रे प्रजायते ॥

जो स्नेहपानमें जीर्ण अजीर्णकी आशंका हो अर्थात् स्नेह पचा है या नहीं ऐसा संदेह हो तो गरमजल पान करे । इस प्रकार करनेसे डकार शुद्ध होजायगी और भोजनमें रुचि उत्पन्न होगी ॥

स्नेहपीतस्तु तृष्णायां पिवेदुष्णोदकं नरः । एवं चानुप्रशाम्यन्तं स्नेहसु-ष्णाम्बुना हरेत् ॥

स्नेहपानके पश्चात् तृषा लगे तो उष्णजल पान करे । इस प्रकार करनेसे भी जो तृषा शांत नहीं हो तो गरम जलको विशेष रूपसे पान करके वमन करदेवे ।

स्नेहद्विषः शिशूनृद्धान् सुकुमारान् कृशानपि । तृष्णालुं चोष्णकाले च सहभक्तेन पाययेत् ॥

जो मनुष्य स्नेहसे द्वेष करते हैं तथा बालक, वृद्ध, कोमल, कृश और तृषासे पीडित मनुष्योंको उष्ण-कालमें भोजनके साथ स्नेहपान कराना चाहिये ॥

बालवृद्धादिषु स्नेहपरिहारासहिष्णु-
षु । योगानिमाननुद्वेगान् सद्यः स्ने-
हान् प्रयोजयेत् ॥

बालक और वृद्ध तथा स्नेहपानके परहेजको नहीं
सहन करनेवाले मनुष्योंको उद्वेग रहित और तत्काल
स्नेहन करनेवाले इन नीचे लिखे प्रयोगोंको सेवन
करावे ॥

प्राश्य मांसरसान् स्नेहान् पेया वा
स्नेहभर्जिता । पिबेत्सुखोष्णं मनुजः
सद्यः स्नेहनमुच्यते ॥

स्नेहके द्वारा भुनी हुई पेया अथवा स्नेहयुक्त मांस-
रसको मनुष्य सुहाता रपान करे तो तत्काल स्नेहन
होता है ॥

धारोष्णं स्नेहसंयुक्तं पीत्वा सलवणं
पयः । दध्नो रसं सारगुडं पीत्वा स्नि-
ह्यति मानवः ॥

धारोष्ण दूधमे घृत डालकर अथवा दूधमे सैंधान-
नमक और स्नेह डालकर अथवा दहीकी मलाईमें
गुड डालकर पीनेसे मनुष्य तत्काल स्निव होता है ॥

सर्पिष्मती बहुतिला तथैव स्वल्पतं-
दुला । सुखोष्णा सेव्यमाना तु सद्यः
स्नेहनमुच्यते ॥

घीमें पकाई हुई, बहुत तिलोवाली और थोड़े
चावलोंकी यवागू बनाकर सुहाता २ सेवन करनेसे
तत्काल स्नेहन होता है ॥

शर्कराघृतसंस्मृष्टे दुह्याद्रां कलशे-
थवा । पायथेदक्षमेतद्धि सद्यः स्नेह-
नमुच्यते ॥

खोंड और घृतसे लिपे हुए कलसेमें गायके दूधको
दुहकर अक्षप्रमाण पान करनेसे तत्काल स्नेहन
होता है ॥

स्नेहपानका निषेध ।

विवर्जयेत् स्नेहपानमजीर्णं तरुण
ज्वरी । दुर्बलोऽरोचकी स्थूलो मू-
र्छार्त्तो मदपीडितः ॥ छर्द्याभिभूत-
मन्पितः श्रान्तः पानकृमान्वितः ।

दत्तवस्तिर्विरिक्तश्च वान्तो यश्चापि
मानवः ॥ अकाले च प्रसूता स्त्री
स्नेहपानं विवर्जयेत् । स्नेहपानाद्भवे-
देषां नृणां नानाविधो मदः । गदा वा
कृच्छ्रतां यान्ति न सिध्यन्ति तथा
पुनः ॥

अजीर्ण, तरुणज्वर, दुर्बल, अरुचि, स्थूलता, मूर्च्छा
और मदसे पीडित, तथा वमन, तृपायुक्त, थका हुआ,
मद्यपानसे ग्लानिको प्राप्त हुआ, जिसको वस्तिवर्म्म
विरेचन कर्म और वमन कराई गई हो ऐसे मनुष्यको
स्नेहपान नहीं कराना चाहिये । विनासमयमें
प्रसूतास्त्रीको भी स्नेहपान नहीं कराना चाहिये ।
क्योंकि, इनको स्नेहपान करानेसे अनेक प्रकारके
मद और घोर रोग उत्पन्न होते हैं और वे रोग
कष्टसाध्य होकर आरोग्य नहीं होते ॥

उष्णोदकोपचारी स्याद् ब्रह्मचारी
क्षपाशयः ॥

स्नेहको पान करनेवाला उष्णजलका उपचार करे
ब्रह्मचर्यको धारण करे और रात्रिमें शयन करे ॥

वेगरोधनव्यायामक्रोधशोकहिमात-
पान् । वर्जयेत्प्रयत्नो नित्यं सेवयेच्छ-
यनासनम् ॥

तथा मलमूत्रादिके वेगोंका अवरोध, व्यायाम,
क्रोध, शोक, गीत, धूप और वायु इन सबको त्याग देवे
एव सुखपूर्वक शयन करे ॥

स्नेहं पीत्वा पुनः स्नेहं प्रतिभुञ्जानमेव
च । स्नेहपथ्यापचाराद्धि जायन्ते दा-
रुणा गदाः ॥

स्नेहको पीकर फिर स्नेहपान करनेसे अथवा स्नेह
पानके ऊपर स्नेह मिला भोजन करनेसे इत्यादि
अपथ्य अपचारोंसे अनेक प्रकारके दारुण रोग
उत्पन्न होते हैं ।

अस्निग्धमात्रके लक्षण ।

पुरीषं ग्रन्थितं रूक्षं वायुरप्रगुणो वि-
टम् । पक्ता खरत्वं रौक्ष्यञ्च गात्रस्या-
स्निग्धलक्षणम् ॥

मलमे गांठें पडना, शरीरमें रूखापन, मल वायुसे विगडाकर फटासा हो जाना, कठिणतासे पचना और अन्तमे रूखा होना ये अस्निग्धगात्रके लक्षण जानने ॥

स्निग्धके लक्षण ।

वातानुलोम्यं दीप्ताग्निर्वर्चः । स्निग्ध-
मसंहितम् । मार्दवं स्निग्धता चाङ्गे
स्निग्धानामुपजायते ॥

वायु अनुलोमन हो अर्थात् अच्छे प्रकारसे काष्ठमे संचार करे, अग्नि दीपन हो, मल स्निग्ध और अलग अलग हो, शरीरमें मृदुता और स्निग्धता हो ये स्निग्धशरीरके लक्षण जानने ॥

अतिस्निग्धके लक्षण ।

पांडुता सदनं तन्द्रा पुरीषस्य विप-
कता । उत्केशो जाड्यमरुचिः स्या-
दतिस्निग्धलक्षणम् ॥

शरीरमें पांडुपन, आलस्य, अवसन्नता, तन्द्रा, मलका न पकना, उत्केश (उबकाईसी आना), जड़ता, और अरुचि ये अतिस्निग्धके लक्षण जानने ॥

मिथ्याहारादिना लोके स्नेहः पीतो
ज्वरादिकृत । प्रकुय्याल्लघनं तत्र मलं
ज्ञात्वा विरेचनम् ॥

मिथ्या आहारादिके साथ अथवा कुविधिसे स्नेहको पान करनेसे ज्वरादिरोग उत्पन्न होते हैं । उन ज्वरादि रोगोंमें यथादोषानुसार और रोगीके बलके अनुसार लघन करावे और जो मलकी बद्धता हो तो विरेचन करावे ॥

रूक्षस्य स्नेहनं स्नेहैरतिस्नेहस्य रूक्ष-
णम् । श्यामाककोरदूषान्नतक्रपिण्या-
कसकुभिः ॥

रूक्षमनुष्यको स्नेहपान कराकर स्निग्ध करे । और अति स्निग्धमनुष्यको समा, कोदो, तक्र, खल और सजू इनके द्वारा रूक्ष करे ॥

स्नेहपानका फल ।

दीप्तान्तराग्निः परिशुद्धकोष्ठः प्रत्य-
प्रधातुर्बलवर्णशुक्तः । दृढेन्द्रियो म-

न्दजरः शतायुः स्नेहोपसेवी पुरुषः
प्रदिष्टः ॥

स्नेहको पान करनेसे जठराग्नि दीपन होती है, कोठा शुद्ध होता है, धातुओकी वृद्धि होती है, बल और वर्ण सुन्दर होता है, इन्द्रिये दृढ होती है, तथा स्नेहसेवी पुरुषके वृद्धता सहसा नहीं आती और अवस्था सौ वर्षकी होती है ॥

स्नेहमेवं परंविद्याद्दुर्बलानलदीपनम् ।
बलं स्नेहसमिद्भिश्च समायातः सद्-
बलः ॥

मंदाग्निको दीपन करनेके लिये स्नेहपान उत्तम उपाय है । स्नेहकी समिधासे दुर्बल मनुष्य बलको प्राप्त होता है ॥

स्नेहे व्यायामसंशीतवेगाघातप्रजा-
गरान् । दिवास्वप्नमाभिष्यन्दिरूक्षा
न्नश्च विवर्जयेत् ॥

स्नेहपानके ऊपर व्यायाम (दण्ड कसरत), अत्यन्त शीत, मलमूत्रादिकोंके वेगोंका अवरोध, रात्रिमे जागना, दिनमे सोना, अभिष्यन्दि पदार्थोंका सेवन और रूक्ष अन्न इन सबको त्याग देवे ॥

इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां स्नेहपाना-
धिकार समाप्त ॥ ७५ ॥

अथ स्वेदाधिकार ।

येषां नस्यं विधातव्यं वस्तिश्चैवापि
देहिनाम् । शोधनीयाश्च ये केचित्पूर्वं
स्वेद्यास्तु ते मताः ॥ १ ॥

जिन मनुष्योंको नस्य देना हो, वस्तिकर्म करना हो, अथवा विरेचन कराना हो उनके शरीरमे प्रथम स्वेद देना चाहिये ॥ १ ॥

पश्चात् स्वेद्याहते शल्ये मूढगर्भाद्यु-
पद्रवाः । सम्यक् प्रसूताऽकाले च
पश्चात् स्वेद्यैव यत्नतः ॥ २ ॥

मूढगर्भादि उपद्रवोंमें स्त्रियोंके शरीरमेंसे गल्यके निकलनेके पश्चात् स्वेद देना चाहिये, उचित समयमें प्रसव होनेपर अथवा असमयमें प्रसव होनेपर प्रसवके पश्चात् स्वेद देना चाहिये ॥ २ ॥

स्वेद्यः पूर्वं च पश्चाच्च भगंदर्य्यर्शस-
स्तथा । अश्मर्या चातुरो जन्तुः
शेषाञ्छास्त्रे प्रचक्ष्महे ॥ ३ ॥

भगन्दर, बवासीर और पथरी इन रोगोंमें शस्त्र-
कर्म करनेसे पहिले और पीछे दोनों समय स्वेद देना
चाहिये और शेषरोगोंमें यथाप्रसंग कहेंगे ॥ ३ ॥

स्नेहकिलन्नशरीराय तैलाभ्यक्त्याय दे-
हिने । दोषानात्तवकालज्ञो ध्यान-
स्वेदं प्रयोजयेत् ॥ ४ ॥

स्नेहपानादिसे निग्ध कियेहुए शरीरवाले और
शरीर तैलादिकका अभ्यंग कियेहुए मनुष्यको दोष,
ऋतु पीडा और कालको जाननेवाला वैद्य यथावि-
धिसे स्वेद देवे ॥ ४ ॥

नानभ्यक्ते नापि चास्निग्धदेहे स्वेदो
योज्यः स्नेहवद्भिः कथञ्चित्वाट्टं लोके
काष्ठमस्निग्धमाशु गच्छेद्द्रुङ्गं स्वेदयो-
गैर्गृहीतम् ॥ ५ ॥

अभ्यंग और स्नेहनकर्मके विना शरीरमें स्वेद देना
कदापि ठीक नहीं है । क्योंकि, देखो काठको घिना
चिकनाई लगाये अग्निके द्वारा स्वेदित करके नवाया
जाय तो वह शीघ्र टूट जाता है ॥ ५ ॥

मांसमाषतिलादीनां वालुकानाम-
थापि वा । कुम्भीपिण्डेऽष्टका स्वेदा-
न्नायं प्रस्तरसंकरात् ॥ ६ ॥

मांस, माप और तिलोंके द्वारा, वालुके द्वारा, कु-
म्भी, पिण्ड, इष्टका, प्रस्त और संकर स्वेद किया
जाता है ॥ ६ ॥

वानर्देदशमूलैर्वा शीतैराच्छाद्य च-
क्षुषी । वृषणौ हृदयं दृष्टी स्वेदयेन्मृ-
दु वा न वा ॥ मध्यमं वङ्क्षणे शे-
षमङ्गावयवमिष्टतः ॥ ७ ॥

प्रथम रोगिके नेत्रोंको वातनाशक पदार्थोंसे अथवा
दशमूलकी औषधियोंसे किंवा शीतलपदार्थोंसे आच्छा-
दित करके पश्चात् वृषणोंको, हृदयको और नेत्रोंको
कोमल स्वेद देवे । फिर वङ्क्षणदेशको स्वेदित करे
और मध्यम तथा शेष अंगोंको यथेच्छरूपसे स्वेदित
करे ॥ ७ ॥

स्वेदो हितस्त्वनाग्नेयो वाते मेदः-
कफावृते । निवातगृहमायासो गुरु-
प्रावरणं भयम् ॥ ८ ॥ उपनाहाह्वय-
क्रोधभरिपानक्षुधातपाः । स्वेदयन्ति
दशैतानि नरमग्निगुणादृते ॥ ९ ॥

मेद और कफसे आच्छादित वातमें विना अग्निके
स्वेद देना हितकर है, वायुरहित स्थानमें रहना, परि-
श्रम, भारी आच्छादन, भय, उपनाह, क्रोध, अधिक
पान, अधिकक्षुधा और धूप ये दश अग्निके विना
मनुष्यको स्वेदित करते हैं ॥ ८ ॥ ९ ॥

सर्वान् स्वेदाग्निवाते च जीर्णस्त्रे वा
च कारयेत् ॥ १० ॥

सर्वप्रकारके स्वेदोंको वातरहित स्थानमें और
भोजनके जीर्ण होनेपर करे ॥ १० ॥

व्याधौ शीते शरीरे च महान् स्वेदो
महाबले । दुर्बले दुर्बलः स्वेदो मध्य-
मे मध्यमो मतः ॥ ११ ॥

व्याधि, शीत और शरीर ये तीनों महाबलवान्
हैं तो महास्वेद, इनके दुर्बल होनेपर दुर्बलस्वेद और
मध्यम होनेपर मध्यमस्वेद देवे ॥ ११ ॥

बलासे रूक्षणः स्वेदो रूक्षस्निग्धः
कफानिले । कफमेदोवृते वाते सेवे-
त्कोष्णं गृहं रविम् ॥ १२ ॥

कफके रोगमें रूक्ष करनेवाला स्वेद देवे, कफसे
हित वायुके रोगमें रूक्ष और स्निग्ध स्वेद देवे, कफ
और मेद सहित वायुरोगमें उष्णगृह और सूर्यकी
किरणोंको सेवन करे ॥ १२ ॥

तत्र तापोष्मस्वेदौ विशेषतः श्लेष्म-
घ्नौ । उपनाहस्वेदो वातघ्नः अन्यत-
रास्मिन् पित्तसंसृष्टे द्रवस्वेद इति

कफमेदोऽन्विते वायौ निवातप्रहात-
पगुरुप्रावरणादिभिः स्वेदमुत्पादये-
दित् ।

सर्व स्वेदोंमें विशेष करके तापस्वेद और उष्णस्वेद कफनाशक है । उपनाहस्वेद वातनाशक है । वात या कफ जब पित्तसे मिलजाते हैं तब द्रवस्वेद दिया जाता है । कफ और मेदयुक्त वायुमें रोगीको निर्वातस्थानमें बैठाकर अथवा धूपमें बैठाकर या भारी वस्त्र उढाकर पसीना निकलवावे ॥

स्नेहविलत्रा धातुसंस्थाश्च दोषाः स्व-
स्थानस्था ये च मार्गेषु लिताः ।
सम्यक् स्वेदैर्योजितैस्ते द्रवत्वं प्रा-
प्ताः कोष्ठं यान्ति देहादशेषात् ॥१३॥

स्नेहसे स्निग्धहुए धातुओंमें स्थित दोष, स्वस्थानमें स्थितदोष तथा मार्गोंमें लिप्तदोष अच्छेप्रकारसे स्वेदित होनेपर पिघल कर सम्पूर्ण शरीरसे कोष्ठमें पहुँच जाते हैं ॥ १३ ॥

शीतशूलव्युपरमे स्तम्भगौरवनि-
ग्रहे । सञ्जाते मार्दवे देहे स्वेदना-
द्विरतिर्मता ॥१४॥

शीतके और पीडाके निवृत्त होनेपर तथा स्तम्भता और गौरवताके नष्ट होनेपर और शरीरके मृदु होनेपर स्वेदनकर्म त्याग देना चाहिए ॥ १४ ॥

अग्नेर्दीप्तिं मार्दवं त्वक्प्रसादं भक्त-
श्रद्धां स्रोतसां निर्मलत्वम् । कुर्या-
त्स्वेदो हन्ति निद्रां सतन्द्रां सन्धी-
स्तब्धांश्चेष्टयेदाशु युक्तः ॥ १५ ॥

स्वेदनकर्म जठराग्निको दीपन करता है, शरीरमें कोमलता और त्वचामें मृदुता, भोजनमें रुचि और शरीरके स्रोतोमें निर्मलता उत्पन्न करता है । निद्रा, तन्द्रा आर सन्धीकी स्तब्धताको दूर करके देहमें अपूर्व स्फूर्तिको उत्पन्न करता है ॥ १५ ॥

अच्छेप्रकारसे स्वेदित किये

हुएके लक्षण ।

स्वेदास्त्रावो व्याधिहानिर्लघुत्वं शी-
तार्थित्वं चार्द्रवं चातुरस्य । सम्यक्

स्विने लक्षणं प्राहुरेतन्मिथ्यास्विने
व्यत्ययेदेतदेव ॥ १६ ॥

रोगीके पसीनोंका निकलना बंद होजाय, रोग-
का नाश होजाय, शरीरमें हलकापन होजाय, शी-
तलताकी इच्छा हो और शरीरमें कोमलता होजाय
तो जानना कि अच्छे प्रकारसे स्वेदन हुआ है और
जो इससे विपरीत लक्षण हो तो जानना कि मिथ्या-
स्वेद हुआ है ॥ १६ ॥

अत्यंत स्विन्नके लक्षण ।

स्फोटोत्पत्तिः पित्तरक्तप्रकोपो मूर्च्छा
भ्रान्तिर्दाहृतृष्णे क्लमाच्च । अति-
स्विने संधिपीडा तृषा च क्रियां शी-
तां तत्र कुर्याद्विधिज्ञः ॥ १७ ॥

अत्यंत स्वेदन करनेसे शरीरमें फोडे, फुंसियोंका निकलना, पित्तरक्तका प्रकोप, मूर्च्छा, भ्रम, दाह, तृषा, क्लान्ति और संधिपीडा ये सब लक्षण होते हैं । इस प्रकार लक्षण होनेपर शीघ्र ही विधिको जाननेवाला वैद्य शीतक्रिया करे ॥ १७ ॥

अतिस्विन्ननराणाञ्च शीतांबुप्राशनं
हितम् । स्नानमुष्णांबुना चापि ह्य-
नभिष्यंदिभोजनम् ॥ १८ ॥

अत्यन्त स्विन्नमनुष्यको शीतल जल पिलावे, उष्ण जलके द्वारा स्नान करावे और अनाभिष्यदि भोजन करावे ॥ १८ ॥

पांडुर्मेही रक्तपित्ती तृषातोऽक्षामोऽ-
जीर्णा चोदरातो विषार्तः । तृष्टूर्च्या-
तो गर्भिणी पीतमद्यो नैते स्वेद्या
यश्च मर्त्योऽतिसारी ॥ १९ ॥

पाण्डुरोगी, प्रमेहरोगी, रक्तपित्तरोगी, तृषासे पी-
डित, असमर्थ, अजीर्णरोगी, उदररोगी, विपरोगी,
तृषा और वमनसे व्याकुल, गर्भवती स्त्री, मद्यपी
और अतिसाररोगी इन सबको स्वेद नहीं देना
चाहिये ॥ १९ ॥

स्वेदादिषां यान्ति देहा विनाशश्चा-
साध्यत्वं यान्ति चैषां विकाराः ।

स्वेदैः साध्यौ दुर्बलाजीर्णभक्तौ यदि
स्यातां स्वेदनीया ततस्तौ ॥ २० ॥

इन उपर्युक्त रोगोमे स्वेद देनेसे शरीरका नाश
होजाता है । अथवा रोग असाध्य होजाते है । जो
दुर्बल और अजीर्णरोगी स्वेदहीसे आरोग्य होने
योग्य हो तो उनको मृदुस्वेद देना चाहिये ॥ २० ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां स्वेदाधिकार
समाप्त ॥ ७६ ॥

अथ वमनाधिकार ।

शरत्काले वसन्ते च प्रावृट्काले च
देहिनाम् । वमन रचनं चैव कारये-
त्कुशलो भिषक् ॥ १ ॥

चतुरवैद्य शरदुत्तुमे, वसन्तऋतुमे और वर्षाऋतुमे
प्राणियोको और वमन विरेचन करावे ॥ १ ॥

कफे कफोल्बणे चापि वमनं सध्रश-
स्यते ॥ २ ॥

कफके रोगोमे अथवा कफकी उल्वणतावाले
रोगोमे वमन कराना हितकारी है ॥ २ ॥

वामयेदतिसारार्त्तमधः पित्तास्ररोगि-
णाम् । ग्रन्थिमेहापचीकुष्ठश्लीषदो-
न्मादरोगिणः ॥ ३ ॥ सर्वदोषपरी-
सर्षथासकासोर्ध्वरोगिणः । नवज्वर-
गृहीतश्च हृल्लासार्त्त विशेषतः ॥ ४ ॥

अतिसाररोगी, अधोरक्तपित्तरोगी, ग्रन्थि, प्रमेह,
अपची, कुष्ठ, श्लीषद और उन्मादरोगी, सस्पूर्ण
दापान व्याप्त, थास, खांसी और ऊर्ध्वरोगी एव नव-
ज्वरवाले और विशेष करके हृल्लास (उन्नकाई) से
पीडित इन सबको वमन करानी चाहिये ॥ ३॥४ ॥

न वामयेत्तैमिरिकं न गुल्मिनं न चापि
पाण्डूररोगपीडितम् । स्थूलक्षतक्षी-
णकृशातिवृद्धानशोर्दिताक्षेपकपीडि-
तांश्च ॥ ५ ॥ रूक्षे प्रमेहे तरुणे च
गर्भे गच्छत्यथोर्ध्वं रुधिरं च तीव्रं ।

दुष्टे च कोष्ठे कृमिभिर्मनुष्यं वर्चोऽ-
भिघाते न च वामयेत्तु ॥ ६ ॥

तिमिररोगी, गुल्मरोगी, पांडुरोगी, उदररोगी,
स्थूलशरीरवाले मनुष्य, क्षतक्षीण, अत्यन्त कृश,
अत्यंत वृद्ध, अर्श, आर्दित और आक्षेपकसे पीडित
मनुष्योंको एवं रूक्षशरीर, प्रमेह, नवीन गर्भवती
स्त्री, तीव्र ऊर्ध्वरक्तपित्तरोगी, दुष्टकोष्ठवाले, कृमि-
रोगी और मलक्षय रोगी इनको कदापि वमन नहीं
करावे ॥ ५ ॥ ६ ॥

एतेऽप्यजीर्णव्यथिता वाम्या ये च
विषातुराः । अत्युल्बणकफाये च ते
च स्युर्मधुकाम्बुना ॥ ७ ॥

यदि इन उपर्युक्त रोगोमे भी अजीर्णरोगी, विप-
रोगी और अत्यन्त उल्वण कफरोगी वमन कराने
योग्य हो तो उनको मुलैठीके काथसे वमन करावे
॥ ७ ॥

अवाम्या वमनाद्दोगाः कृच्छतां या-
न्ति देहिनाम् । असाध्यतां वा गच्छ-
न्ति नैते वाम्यास्ततः स्मृताः ॥ ८ ॥

मनुष्योंके जिन रोगोमें वमन करानी उचित
नहीं है, उनमें यदि वमन करा जाय तो वे रोग
कष्टसाध्य होजाते है अथवा असाध्य हाजाते है,
इसलिये उनको वमन नहीं करावे ॥ ८ ॥

दोषाः कदाचित्कुप्यन्ति जिता लं-
घनपाचनैः । जिताः संशोधनैर्ये
तु न तेषां पुनरुद्भवः ॥ ९ ॥

लंघन और पाचनसे नष्ट कियेहुए दोष तो कदा-
चित् कुपित होजाते है किन्तु संशोधनसे जीते हुए
दोष फिर कदापि कुपित नहीं होते ॥ ९ ॥

पेशलैर्विविधैरत्रैर्दोषानुत्क्लेश्य देहि-
नः । स्निग्धस्विन्नाय वमनं दत्तं सम्य-
क् प्रवर्त्तत ॥ १० ॥

वमन करानेसे पहिले दिन रोगीको अनेक प्रकार
के कोमल और पतले अन्नोको सेवन कराकर दोषोंको
उत्क्लेशित करदेवे । फिर स्नेहन और स्वेदन कर्म

कराकर वमन देवे तो वमन अच्छे प्रकारसे होने लगती है ॥ १० ॥

निशि सुप्तञ्च पूर्वाह्ने जीर्णाहारकृते-
क्षणम् । वमनं पाययित्वा तु जानु-
मात्रासने स्थितम् ॥ कण्ठं गन्धर्वना-
लेन स्पृशन्तं वामयेद्भिषक् ॥ ११ ॥

रात्रिमें जिसने अच्छे प्रकारसे निद्रा ली हो ऐसे मनुष्यको दिनके पहिले प्रहरमें भोजनके जीर्ण होने-पर वमनकारक ओषधि पान कराकर जानु पर्यन्त ऊंचे आसनपर विठालकर वमन करावे और वैद्य उसके गलेको अण्डकी नालसे उसीके हाथसे वार वार स्पर्श कराता जाय ॥ ११ ॥

ललाटं वमतः पुंसः पार्श्वौ हस्तेन
बोधयेत् ॥ १२ ॥

वमन करनेवाले मनुष्यके ललाटको और पसलियोंको हाथास मलता जाय ॥ १२ ॥

कफश्च कटुतीक्ष्णोष्णैः पित्तं स्वादु-
हिमैर्वमेत् । सुस्वादुलवणाश्लोष्णैः
संसृष्टं वायुना कफम् ॥ १३ ॥

कफके रोगीको कटु, तीक्ष्ण और उष्णपदार्थोंके द्वारा वमन करावे । पित्तके रोगीको मधुर और शीतलपदार्थोंके द्वारा वमन करावे और वायुमिश्रित कफके रोगीको मधुर, लवण, अम्ल और उष्ण पदार्थोंके द्वारा वमन करावे ॥ १३ ॥

पानद्रव्यसस्योत्तैः स्वरसः पलामि-
ष्यते । वमनं रेचनं चाक्षं स्नेहादिश-
मनं परम् ॥ १४ ॥

वमन, विरेचनके लिये पानद्रव्योंका स्वरस एक पल अर्थात् चार तोले परिमाण लेना चाहिये और स्नेहादि वमन द्रव्य दो तोले प्रमाण लेने चाहिये १४ ॥

काथ्यद्रव्यस्य कुडवं श्रपयित्वा ज-
लाढके । अर्द्धभागावशिष्टञ्च वमनेष्व-
विचारयेत् ॥ १५ ॥

वमनके लिये काथ करनेके पदार्थोंको सोलह तोल डालकर एक आढक जलमें पकावे । जब पकते पकते जल आधा भाग वाणी रहजाय तब उता कर छान लेवे, पचान् रोगीको वमनके लिये देवे ॥ १५ ॥

यष्टीमधुवचाकुष्ठं बीजानां कुटजस्य
च । कल्कैरालोडच निम्बस्य कषायं
पाययेद्भिषक् ॥ प्रवृत्तलालाहृत्सासं
वामयेत् स्निग्धमातुरम् ॥ १६ ॥

मूलेठी, वच, कूठ और कुडके बीज इन सबका एकत्र कल्क बनाकर उसको नीमके काथमें अच्छे प्रकारसे मिलाकर वह काथ पान करावे । घृत-तैलादिकसे स्निग्ध कियेहुए रोगीके चित्तको मलिन कराकर उबकाई और लारको गिराता हुआ वमन करावे ॥ १६ ॥

कृष्णेन्द्रयवसिन्धूत्थराठकल्कयुतं पि-
बेत् ॥ यष्टीकषायं सक्षौद्रं तेन साधु
वमत्यलम् ॥ १७ ॥

पीपल, इन्द्रजौ, सैधानमक और हर्गि इनके कल्क को और शहदको मिला मुलेठीका काथ पान करनेसे अच्छेप्रकारसे वमन होजाती है ॥ १७ ॥

निंबकषायोपेतं फलिनीगदमदनम-
धुसिन्धूत्थम् ॥ मधुयुतमेतत्पानं कफ-
परिपूर्णाशये शस्तम् ॥ १८ ॥

फूलप्रियंगू, कूठ, भैरवफल मुलेठी और सैधानमक इनका कल्क और शहद नीमके काथमें डालकर पान करनेसे अत्यन्त भराहुआ कफ वमनके द्वारा निकल जाता है ॥ १८ ॥

तण्डुलसालिलनिषिष्टं यः पीत्वा व-
मति नरः पूर्वाह्ने । फलिनीवलकलक-
लकं हरति गदश्च कफपित्तरुजम् ॥ १९ ॥

फूलप्रियंगूकी छालको चावलके जलमें पीसकर प्रभातकालमें जो मनुष्य पान करके वमन करता है उसके कफ और पित्तके समस्त रोगनष्ट होजाते हैं ॥ १९ ॥

आटरूषवचानिंबं पटोलं फलिनी-
त्वचम् । काथयित्वा पिबेत्तोयं वांति-
कृन्मदनान्वितम् ॥ २० ॥

अडूसा, वच, नीम, पटोलपत्र और फूलप्रियंगूकी छाल इनका काथ बनाकर उसमें भैरवफलका चूर्ण डालकर पान करे तो अच्छे प्रकारसे वमन होजाती है ॥ २० ॥

जीमूतकफलेक्ष्वाकुङ्कुटजाः कृतवे-
धनः । धामार्गवश्च संयोज्यः सर्वथा
वमनेष्वमी ॥ २१ ॥

देवदालीके फल (बदाल), कडवी तोम्बी, इन्द्रजौ
कडवी तोरई और बडी तोरई ये सब वमनके लिये
प्रयोग करनी चाहिये ॥ २१ ॥

मदनफलमज्जसिद्धं क्षीरं दधितां गतं
तत्समं वा । वमनाय कफप्रसेके वमनं
कफेषु च प्रयुञ्ज्यात् ॥ २२ ॥

मदनफलकी मज्जाको दूधमे पकाकर दहीको जमावे
पश्चात् कफके रोगोंमे कफको निकालनेके लिये
रोगीको यह सेवन कराकर वमन करावे ॥ २२ ॥

तत्र सुकुमारं कृशं बालं वृद्धं भीरुं
वा वमनसाध्येषु विकारेषु क्षीरदाधि-
तक्रयवाग्नामन्यतमेनाकण्ठं पाय-
यित्वा वामयेत् ।

सुकुमार (कोमल), कृश, बालक, वृद्ध और
भयभीत इनके यदि कोई रोग उत्पन्न होजाय और
वह वमन करानेसे ही आरोग्य होसके तो उसमे
दूध, दही, तक्र और यवागू इनमेसे किसी एकको
कठ पर्यंत पान कराकर वमन करावे ।

कफप्रसेकं हृदयाविशुद्धिः कण्ठश्च
दूर्वामितलिङ्गमाहुः । पित्तातियो-
गश्च विसंज्ञताश्च हृत्कण्ठपीडामपि
चातिवान्ते ॥ २३ ॥

कुविधसे अत्यन्त वमन होनेसे अथवा हीन वमन
होनेसे मुखसे कफका गिरना, हृदयमें भारपन और
खुजलीका होना इत्यादि लक्षण होते है । अत्यंत
वमन होनेसे अत्यंत पित्तका निकलना, बेहोसी,
हृदय और कंठमे पीडा होती है ॥ २३ ॥

पित्ते कफस्यानुसुखं प्रवृत्ते शुद्धेषु ह-
त्कण्ठशिरःसु चापि । लघौ च देहे
कफसंश्रये च स्थिते सुवान्तं पुरुषं
व्यवस्येत् ॥ २४ ॥

पित्तके पश्चात् सुखपूर्वक कफका निकलजाना,
हृदय, कण्ठ और शिरमें शुद्धता, शरीरमे हलकापन
और कफका बिना रुके निकलजाना ये सब लक्षण
अच्छे प्रकारसे वमन हुए पुरुषके जानने ॥ २४ ॥

पित्तान्तामिष्टं वमनं विरेकाद्धं कफा-
र्तश्च विरेकमाहुः । द्वित्रीन् सविट्का-
नपनीय वेगान्मेयं विरेके वमने तु
पीतम् ॥ २५ ॥

जब पित्त निकलने लगे तबतक वमन कराना
चाहिये और जब कफ निकलने लगे तबतक विरेचन
कराना चाहिये । विरेचनसे वमनमे आवे द्रव्यका
परिमाण है । विरेचनमे मलसहित दो तीन वेगोंको
त्याग करके विरेचन और वमनमे पिये हुए द्रव्यको
छोड कर जेप वेगोंको प्रमाण जानना ॥ २५ ॥

सम्यग्वान्तं चैनमभिवीक्ष्य स्नेहि-
कवैरेचनिकोपशमनीयानामन्यतमं
धूममाकण्ठं सामर्थ्यतः पाययित्वा
आचारिकमुपदिशेत् ।

जब अच्छे प्रकारसे वमन होचुके तब स्रोतोमें
लिपटे हुए कफको निकालनेके लिये धूमपान करावे ।
वातकी प्रकृतिमें स्नेहन औषधियोंके द्वारा, कफकी
प्रकृतिमे विरेचन औषधियोंके द्वारा और समप्रकृतिमे
सशमनीय औषधियोंके द्वारा कण्ठपर्यंत सामर्थ्य-
पूर्वक धूमपान कराकर फिर योग्य उपचारको उप-
देश करे ।

वान्त्यर्थमौषधे पीते वान्तिर्भवति नो
यदि । पिबेद्वात्रीकणानिम्बकषायमु-
ष्णवारिणा ॥ २६ ॥

यदि वमनकारक औषधियोंके पीनेपर वमन नहीं
हो तो आमले, पीपल और नीमके काथको गरम-
जलके माथ पान करे ॥ २६ ॥

वमनस्यातियोगे तु शीताम्बुपरिसे-
वनः । पिबेत्कटुरसैर्मण्डं सघृतक्षौद्रश-
र्करम् ॥ वमनेऽतिप्रवृद्धे च हृद्यं कार्यं
विरेचनम् ॥ २७ ॥

अत्यन्त वमनके होनेपर शीतल जलको सेवन करे । अथवा तीखे रसोमे मांड, घी, शहद और मिश्री मिलाकर पान करे । वमनकी अत्यन्त प्रवृत्ति होनेपर हृद्यको हितकारी विरेचन देवे ॥ २७ ॥

सोद्वारायां भृशं छर्द्या मूर्च्छायां यासमुत्तयोः । समधूकांजनं चूर्ण लेहयेन्मधुसर्पिषा ॥ २८ ॥ वमतोऽन्तःप्रविष्टायां जिह्वायां कवलग्रहः । निश्रिताश्च तिलद्राक्षाकलकलितां प्रवेशयेत् ॥ २९ ॥

यदि डकार सहित अत्यन्त वमनके होनेपर सूच्छा (बेहोशी) होजाती हो तो जवासा, नागरमोथा, सुलैठी और श्वेताञ्जन इनके चूर्णको शहद और घीमे मिलाकर सेवन करे । जो वमन करानेसे जिह्वा भीतरको बैठगई हो तो खट्टे, नमकीन अथवा दूध, तक्र ऐसे द्रव्योंका कवल धारण करे । और जो जिह्वा बाहरको निकल आवे तो तिल और दाखके कलकको जिह्वाके ऊपर लगाकर भीतरको प्रविष्ट करदेवे ॥ २८ ॥ २९ ॥

ततो पराह्ने सुविशुद्धदेहमुष्णाभिरद्भिः परिषिक्तगात्रम् । कुलित्थमुद्गाढकजाङ्गलानां यूषं रसैर्वाप्युपभोजयेत्तम् ॥ ३० ॥

जब वमनसे रोगीका शरीर शुद्ध होजाय तब दुपहरके पश्चात् उष्ण जलसे स्नान कराकर कुलथी, मूंग और अडहर अथवा जागलदेशके जीवोंके मांसरसके साथ भोजन करावे ॥ ३० ॥ -

पेयां विलेपीमकृतं कृतं च यूषं रसं त्रीनुभयं तथैकम् । क्रमेण सेवेत नरोऽन्नकालान् प्रधानमध्यावरशुद्धिशुद्धः ॥ ३१ ॥

वमनसे उत्तम शुद्धि, मध्यमशुद्धि और कनिष्ठशुद्धि वाला मनुष्य भोजनके समय पेया, विलेपी, अकृत और कृत यूपरस इनमेसे तीनोंको या दोनोंको अथवा एकको यथाक्रमसे सेवन करे ॥ ३१ ॥

धान्यकलकेन संशुद्धा नागरेण समन्विता । सुलघ्नी दीपनी पेया वातरक्ते च शस्यते ॥ ३२ ॥

धनियेके कलकसे संस्कार की हुई और सोंठसे युक्त ऐसी पेया वमनसे शुद्ध शरीरवाले मनुष्यको हलकी दीपन और वातरक्तको हरनेवाली है ॥ ३२ ॥

यथाणुरग्निस्तृणगोमयाद्यैः संधुक्षमाणो भवति क्रमेण । महान् स्थिरः सर्वपचस्तथैव शुद्धस्य पेयादिभिरन्तराग्निः ॥ ३३ ॥

जिसप्रकार अग्निकी बहुत छोटी चिनगारी तृण और उपलो, आदिके संयोगसे बड़े बड़े वनकाष्ठसमूहको जलानेमे समर्थ होजाती है, उसीप्रकार वमनादिसे शुद्ध क्रिये हुए मनुष्यके सेवन की हुई पेया जठराग्निकी अत्यन्त दीपन करदेती है ॥ ३३ ॥

कफसेकस्वरभेदनिद्रा-तन्द्रास्यदौर्गन्ध्यविषोपसर्गाः । गुरुत्वकंडूग्रहणीप्रदोषा न सन्ति जन्तोर्वमतः कदाचित् ॥ ३४ ॥

वमनको करनेवाले मनुष्यके कफका थूकना, स्वरभेद, निद्रा, तन्द्रा, मुखमे दुर्गंध, विषकी पीडा, शरीरमे भारीपन, खुजली और संग्रहणी ये विकार कदापि उत्पन्न नहीं होते ॥ ३४ ॥

छिन्ने तरौ पुष्पफलप्रवाला यथा विनाशं सहसा व्रजन्ति । तथाहते श्लेष्मणि छर्दितेन तज्जा विकारा विलयं व्रजन्ति ॥ ३५ ॥

जिसप्रकार वृक्षके काटनेपर उसके फूल, फल और अकुर अपने आप ही नष्ट होजाते हैं, उसीप्रकार वमनके द्वारा कफके नष्ट होजानेपर कफके विकार अपने आप ही नष्ट होजाते हैं ॥ ३५ ॥

पथ्यापथ्य ।

वमनादिविधानेषु यावत्कालस्तु गच्छति । तावद्भिः परिहर्तव्यं शीततोयातिमैथुनम् ॥ ३६ ॥

वमनादि विधानमें जितना समय लगे उतने ही समय तक्र शीतल जल और मैथुन आदि त्याग देवे ॥ ३६ ॥

इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां वमनाधिकार समाप्त ॥ ७७ ॥

अथ विरेचनाधिकार ।



ऋतौ वसन्ते शरदि देहशुद्धौ विरे-
चयेत् । अन्यदात्ययिके काले शो-
धनं शीलयेद्बुधः ॥ १ ॥

वसन्त और शरदृतुमें शरीरको शुद्ध करनेके लिये
विरेचन देना चाहिये और किसी रोगके होनेपर
अन्यान्य आवश्यक समयमें भी विरेचन देना
चाहिये ॥ १ ॥

पित्तं विरेचनं युञ्ज्यादौषेपित्तोल्बणे-
ऽपि च । पित्तमत्युल्बणीकृत्य स्नेहे
स्वेदे कृते सति ॥ २ ॥

पित्तमं और पित्तकी उल्बणतामें पित्तको अत्यन्त
उल्बण करके प्रथम रोगीको अच्छे प्रकारसे स्निग्ध
और स्वेदित करके विरेचन देवे ॥ २ ॥

वमने च कृते पूर्वं ततः सम्यग्विरे-
चयेत् । अन्यथा योजितं कुर्यान्म-
न्दाग्निं गौरवारुची ॥ ३ ॥

प्रथम वमन देकर पश्चात् त्रिधिपूर्वक विरेचन
देना चाहिए और जो इसके विपरीत विरेचन दिया
जाय तो मन्दाग्नि, शरीरमें भारीपन और अरुचि
उत्पन्न होती है ॥ ३ ॥

पित्ताधिको मृदुः कोष्ठः पयसापि
विरिच्यते । वातेन श्लेष्मणा क्रूरो दु-
विरेच्यः स उच्यते ॥ ४ ॥

पित्तकी अधिकतावाले मृदुकोष्ठमें केवल दूधसे
भी विरेचन होजाता है और वात तथा कफसे दुष्ट-
कोष्ठमें अत्यन्त तक्षिण औषधियोंके द्वारा भी कठि-
नतासे विरेचन होता है ॥ ४ ॥

समदोषो मध्यमः साधारण इति
तत्र मृदौ मृद्रीमात्रा क्रूरे तीक्ष्णा म-
ध्ये मध्यमा कर्तव्येति ।

जिसमें वातादिदोष समान हों उसको मध्यम
अथवा साधारण कहते हैं उसमें मृदुकोष्ठरोगीके लिये
मृदुमात्रा, क्रूरकोष्ठरोगीके लिये तीक्ष्णमात्रा और
मध्यमकोष्ठवालेके लिये मध्यममात्रा देनी चाहिये ॥

मृदुमध्यक्रूरकोष्ठे कर्षमर्द्धपलम्पल-
म् । उष्णोदकानुपानन्तु पलं द्वे च
पलत्रयम् ॥ ५ ॥

मृदुकोष्ठवाले मनुष्यको एक तोला, मध्यमकोष्ठ-
वालेको दो तोला और क्रूरकोष्ठवालेको चार तोला
औषधिकी मात्रा देनी चाहिये । और इसीप्रकार मृदु
मध्यम और क्रूर कोष्ठमें क्रमसे उष्णजलका चार
तोले, आठ तोले और बारह तोलेका अनुपान करना
चाहिये ॥ ५ ॥

तदर्द्धम्पाययेच्चूर्णमनुपानञ्च तादृश-
म् । काथे काथविधिः कार्य्यस्तदर्द्धः
स्वरसोऽपि च ॥ पित्तुं दद्यात्तथा
स्नेहं पलार्द्धं पलमेव वा ॥ ६ ॥

उससे आधी मात्रा चूर्णकी देनी चाहिये और
उसीके अनुसार अनुपान करना चाहिये । काथके
विषयमें काथकी विधि करनी चाहिये और उससे
आधी स्वरसकी मात्रा देनी चाहिये और स्नेह दो
तोले अथवा चार तोले प्रमाण देना चाहिये ॥ ६ ॥

यथा वमने प्रसेकौषधकफपित्तानिलाः
क्रमेणायान्ति तथा विरेचने पुरीष-
पित्तौषधकफा इति ।

जिसप्रकार वमनमें प्रसेक (लार) को निकालने
वाली औषधिसे कफ, पित्त और वायु ये क्रमसे
निकलते हैं, उसीप्रकार विरेचनमें मल, पित्त, औषधि
और कफ ये क्रमसे निकलते हैं ।

स्नेहस्वेदावकृत्वाग्रे यस्तु संशोधनं
पिबेत् । दारुशुष्कमिवानाम्य तद्देह-
मनिपातयेत् ॥ ७ ॥

जो मनुष्य बिना ही स्नेहन और स्वेदन किये
विरेचनकी औषधि पीता है, उसका शरीर सूखे
काष्ठको नवानेकी समान टूट जाता है ॥ ७ ॥

स्नेहस्वेदैः प्रचलिता रसैः स्निग्धैरु-
दीरिताः । दोषाः कोष्ठगता जन्तोः
सुखा हर्तुं विरेचनैः ॥ ८ ॥

स्नेह और स्वेदस प्रचलित तथा स्निग्धद्रव्योंसे
उदीरित दोष सुखपूर्वक विरेचन औषधियोंसे कोठे-
मसे निकल जाते हैं ॥ ८ ॥

शारदे सौक्ष्म्यतैक्ष्ण्याद्वा विकाश-
त्वाद्द्विरेचनम् । वमनं च हरेदोषं स-
म्यगुक्तं तथान्यथा ॥ ९ ॥

शरद्वतुमें सूक्ष्मगुणोंवाली, तीक्ष्णगुणोंवाली
अथवा विकाशगुणोंवाली औषधियोंके द्वारा विरेचन
देवे । तथा प्रकृतिमें प्राप्त हुये और सम्यक्प्रकारसे
कहे हुए दोषोंको वमन दूर करदेती है ॥ ९ ॥

यात्यधो दोषमादाय पच्यमानं विरे-
चनम् । गुणोद्रेकोज्जेद्बुधूर्ध्वमपक्वं भे-
षजं पुनः ॥ १० ॥

पच्यमानविरेचनकी औषधि दोषोंको ग्रहण करके
नीचेको लेजाती है और अपक्व विरेचनकी औषधि
गुणोत्कर्षसे दोषोंको ऊपर लेजाती है ॥ १० ॥

मृदुकोष्ठस्य दीप्ताग्नेर्दत्तं सम्यग्विरे-
चनम् । न सम्यङ्निर्हरेदोषानति-
मात्रप्रधावितम् ॥ ११ ॥

जिस मनुष्यका कोठा नरम और अग्नि दीपन हो
उसको अच्छे प्रकारसे अधिक मात्राका दिया हुआ
विरेचन अच्छे प्रकारसे दोषोंको नहीं निकालता ११ ॥

त्रिवृत्सैन्धवशुण्ठीनां चूर्णमम्लैः पि-
बेन्नरः । वातार्दितो विरेकाय जाङ्ग-
लानां रसेन वा ॥ १२ ॥

निसोत, सैधानमक और सोंठ इनका चूर्ण बनाकर
उसको राजीके साथ अथवा जांगलप्रदेशके जीवोंके
मासरसके साथ वातसे पीडित मनुष्य विरेचनके
लिए पान करे ॥ १२ ॥

पित्तोत्तरे त्रिवृच्चूर्णं स्वादुकाथादि-
भिः पिबेत् ॥ १३ ॥

पित्तके रोगमें निसोतके चूर्णको मधुर औषधियों
के काथादिके साथ पान करे ॥ १३ ॥

भित्त्वा द्विधेक्षुं परिलिप्य क्लैकस्त्रि-
मण्डिजातैः परिवेष्ट्य रज्ज्वा । पक्व-
न्तु सम्यक् पुटपाकयुक्त्या खादेत्तु तां
पित्तगदी सुशान्ताम् ॥ १४ ॥

एक ईख (गन्ने) का टुकड़ा लेकर उसको वाचमें
धीरे धीरे उसमें निसोतका कल्क भरकर ऊपरसे
रस्सीसे बाँधकर कपरौटी करदेवे । फिर पुटपाककी
रीतिसे अच्छे प्रकार पकाकर शतिल होनेपर उस
पित्तरोगीको विरेचनके लिये सेवन करावे ॥ १४ ॥

हरीतकीविडङ्गानि सैन्धवं नागरं
त्रिवृत् ॥ १५ ॥ मरिचानि च तत्सर्वं
गोमूत्रेण विरेचनम् ॥ १६ ॥

हरड, वायविडग, सैधानमक, सोंठ, मिरच और
निसोत इन सबको एकत्र पीसकर गोमूत्रके साथ
सेवन करनेसे उत्तम विरेचन होता है ॥ १५ ॥ १६ ॥

त्रिवृच्छाणत्रयसमा त्रिफला तत्समानि
च । क्षारकृष्णाविडङ्गानि तच्चूर्णं
मधुसर्पिषा ॥ १७ ॥ लिह्याद्गुडेन
गुटिकां कृत्वा वाष्पुपयाजयेत् । कफ-
वातकृतान् गुल्मान् प्लीहोदरभगन्द-
रान् । हन्त्यःयानपि चाग्नेतान्निरु-
पायं विरेचनम् ॥ १८ ॥

निसोत १ तोला, त्रिफलाकी प्रत्येक औषधि एकएक
तोला, जवाखार १ तोला, पीपल १ तोला और वायविडग
१ तोला इन सबको एकत्र चूर्ण बनाकर उसको शहद
और घीम मिलाकर गुडके योगसे गोलियों बनालेवे
इन गोलियोंको सेवन करनेसे सुखपूर्वक विरे-
चन होता है । तथा कफ, वात, गुल्म, प्लीहा, उदर और
भगन्दररोग नष्ट होते हैं ॥ १७ ॥ १८ ॥

त्रिफलाक्वाथमूर्ध्वैश्च सव्याषं कफपी-
डितः । कृष्णाशुण्ठीत्रिवृत्क्षारचूर्णं
क्षौद्रेण लेहयेत् ॥ १९ ॥ एतद्विरेचनं
मुख्यं सर्वश्लेष्मविकारिणाम् ॥ २० ॥

कफसे पीडित मनुष्यको त्रिकुटेके चूर्णको त्रिफलेके
क्वाथके साथ अथवा गोमूत्रके साथ विरेचनके लिये
पान करावे । अथवा पीपल, सोंठ, निसोत और
जवाखार इनका चूर्ण बनाकर शहदमें मिलाकर सेवन
करावे । सर्वप्रकारके कफरोगियोंके लिये यह उत्तम
विरेचन है ॥ १९ ॥ २० ॥

शर्करा क्षौद्रसंयुक्तं त्रिवृच्चूर्णाविचूर्णितम् । रेचनं सुकुमाराणां त्वक्पत्रम-
रिचान्वितम् ॥ २१ ॥

निमोत, तेजपात, दालचीनी और कालीमिरच इन सबका चूर्ण बनाकर मिश्री और शहदमे मिला कर सेवन करे । यह कोमलप्रकृतिवाले मनुष्यों के लिये उत्तम विरेचन है ॥ २१ ॥

पथ्यासैन्धवकृष्णानां कल्कमुष्णा-
म्बुना पिबेत् । विरेकः सर्वदोषघ्नः
श्रेष्ठो नाराचसंज्ञितः ॥ २२ ॥

हरड, सैधानमक और पीपल इनका कल्क बनाकर गरम जलके साथ सेवन करनेसे अच्छे प्रकारसे विरेचन होकर सर्वदोष नष्ट हो जाते हैं । इसको नाराच कहते हैं ॥ २२ ॥

त्रिवृत्पिप्पलिसिन्धुत्थैरन्वितं गुग्गुलुं
पिबेत् । फलत्रिककषायेण रेचनं स-
र्वदोषनुत् ॥ २३ ॥

निसोत, पीपल, सैधानमक और गुग्गुलु इन सबको एकत्र करके त्रिकफलेके काथके साथ पान करनेसे अच्छे प्रकारसे विरेचन होकर सम्पूर्ण दोष नष्ट होते हैं ॥ २३ ॥

पिप्पलीनागरक्षारश्यामास्त्रिवृतया
सह । लेहयेन्मधुना सार्द्धं कफव्याधौ
विरेचनम् ॥ २४ ॥

पीपल, सोंट, जवाखार, कालानिसोत और निसोत इन सबको एकत्र पीसकर चूर्ण करके शहदमे मिलाकर कफके रागमें देनेसे उत्तम विरेचन होता है ॥ २४ ॥

हरीतक्यास्तु कर्षार्द्धं कर्षार्द्धं त्रिवृत-
स्तथा । शीतांबुना समम्पिष्ट्वा भर्जये-
त्सर्पिषा मनाक् ॥ २५ ॥ तद्द्रव्यं शीतलं
ज्ञात्वा सिताकर्षणं योजयेत् । मुक्तवा
विरिच्यते जन्तुर्यावदुष्णं न सेवते २६

हरडका चूर्ण ६ मासे और निसोतका चूर्ण ६ मासे इन दोनोंको एकत्र शीतल जलमें पीसकर मन्द मन्द अग्निसे थोड़े घीमें भून लेवे । जब शीतल

होजाय तब इसमें एक तोला मिश्री मिलाकर सेवन करे । इसको खानेसे जब तक मनुष्य इसके ऊपर शीतल जल नहीं सेवन करेगा तबतक बराबर दस्त होते रहेंगे ॥ २५ ॥ २६ ॥

हरीतकीभिः कथितं सुवीरं दन्त्य-
त्रिकृष्णाविडचूर्णयुक्तम् । विरेचनं
वा ऋतुतैलमिश्रं निरत्ययं योज्यम-
थामयघ्नम् ॥ २७ ॥

हरडका सौवीरनामक वांजीमें काथ बनाकर उसमें दंती, चीता, पीपल और विड नामकका चूर्ण डालकर अथवा अंडीका तेल डालकर निरन्तर पान करनेसे अच्छे प्रकारसे विरेचन होकर सम्पूर्ण रोग नष्ट होते हैं ॥ २७ ॥

त्रिवृतां कौटजं बीजं पिप्पलीं विश्व-
भेषजम् । समृद्धीकारसं क्षौद्रं वर्षा-
काले विरेचनम् ॥ २८ ॥

निसोत, इंद्रजौ, पीपल और सोंट इनको पीसकर दाखक रस और शहदके साथ वर्षाऋतुमें विरेचनके लिये देव ॥ २८ ॥

त्रिवृद्दुरालभा मुस्ता शर्करोदीच्यचं-
दनम् । द्राक्षाम्बुना सयष्ट्याहं शी-
तलञ्च घनात्यये ॥ २९ ॥

निसोत, धमासा, नागरमोथा, मिश्री, सुगंधवाला, चन्दन और मुँलठी इन सबका चूर्ण बनाकर दाखके रसके साथ शरदऋतुमें सेवन करे । यह विरेचन शीतल है ॥ २९ ॥

त्रिवृता शर्करा तुल्या त्रीष्मकाले
विरेचनम् । त्रिवृतां हपुषां दन्तीं स-
प्तलां कटुरोहिणीम् ॥ ३० ॥ स्वर्णक्षी-
रीञ्च कम्पिल्लं गामूत्रे भावयेद्ब्रह्मम् ।
एष सर्वक्षुको योगः सिग्धानां
मलदोषहा ॥ ३१ ॥

निसोत और मिश्री दोनोंको समान भाग लेकर चूर्ण बनाकर त्रीष्मऋतुमें विरेचनके लिये देव । निसोत हाऊवर, दंती, सातला, कुटकी, सत्यानासी कटेरी और कवीला इन सबको एकत्र करके गोमूत्रमें

तीन दिनतक भावना देवे । यह योग-सर्वकृतुओंमें विरेचनके लिये उत्तम है और स्निग्धमनुष्योंके मल-दोषोंको अच्छेप्रकारसे निकालता है ॥ ३१ ॥

सक्षौद्रां शर्करां पक्त्वा कुय्यान्मृद्वा-
जने नवे । दद्याच्छीते त्रिवृच्चूर्णं त्व-
क्पत्रमरिचैः सह ॥ लिह्यात्तं मात्रया
लेहमीश्वराणां विरेचनम् ॥ ३२ ॥

शर्करा और मिश्रीको एकत्र करके एक उत्तम नवीन मिट्टीके पात्रमें पकावे । जब वह पककर अपने आप शीतल होजाय तब उसमें निसोतका चूर्ण तथा दाल-चीनी, तेजपात और काली मिरचोंका चूर्ण डालकर उसको यथोचितमात्रासे सेवन करे । यह उत्तम विरे-चन ऐश्वर्यान् मनुष्योंके योग्य है ॥ ३२ ॥

अभयाद्यमोदक ।

अभया पिप्पलीमूलं मरिचं विश्वभे-
षजम् । त्वक्पत्रपिप्पलीमुस्तविडङ्गा-
मलकानि च ॥ ३३ ॥ एतानि सम-
भागानि दन्ती च त्रिगुणा भवेत् ।
त्रिवृदष्टगुणा देया षड्गुणा चात्र श-
र्करा ॥ ३४ ॥ मधुना मोदकान् कृ-
त्वा चाक्षमात्रान् प्रमाणतः । एकैकं
भक्षयेत्प्रातः शीतं चानु पिबेज्जलम् ॥
३५ ॥ तावद्विरिच्यते जन्तुर्याव-
दुष्णं न सेवते । पानाहारविहारेषु
भवोन्निर्यन्त्रणः सदा ॥ ३६ ॥
पाण्डुत्वकासविषमज्वरवह्निसादान्
जंघोरुपृष्ठजघनोदरपार्श्वशूलान् । हु-
र्नाममण्डलभगन्दरशोफगुल्मान् य-
क्ष्मोदरभ्रमविदाहकमूत्रकृच्छ्रान् ॥
३७ ॥ प्लीहाक्षिरोगयकृदशमरिकु-
ष्ठमेहान् हन्याद्रसायनमिदं भिषजा
प्रयुक्तम् । अल्पव्ययं बहुफलं सततं
प्रयोज्यमायुष्करं पलितनाशनमश्वि-
हृष्टम् ॥ ३८ ॥

हरड, पीपलामूल, कालीमिरच, सोंठ, दालचीनी, तेजपात, पीपल, नागरमोथा, वायविडंग और आमले

ये सब औषधि समानभाग और दन्ती त्रिगुनी लेवे । निसोत आठगुनी और उत्तम खाँड छः गुनी लेवे । इन सबको एकत्र पीसकर गहदमें मिलाकर एक एक तोलेके मोदक बनालेवे । इनमेंसे प्रतिदिन प्रातःकाल एक एक मोदक खाय और ऊपरसे शीतल जलका अनुपान करे । इस मोदकके खानसे तबतक दूरत होते रहते हैं जबतक कि मनुष्य गरमजल नहीं पिये । इन मोदकको सेवन करनेवालेको विशेष पान, आहार और विहारमें परहेज करनेकी आवश्यकता नहीं है । उत्तम वैद्यके द्वारा प्रयोग की हुई यह औषधि पाण्डु-रोग, खाँसी, विषमज्वर, मंदाग्नि, एव जंघा, ऊरु, पृष्ठ, जघन, उदर और पार्श्वशूल, बवासीर, मण्डल, भगन्दर, सूजन, गुल्म, राजयक्ष्मा, उदररोग, भ्रम, दाह, मूत्रकृच्छ्र, प्लीहा, नेत्ररोग, यकृत, अश्मरी, कुष्ठ और प्रमेह इन सब रोगोंको नष्ट करती है । तथा अल्पव्ययसे सिद्ध होनेवाली और महान् फलको देनेवाली है, इस लिए इसको सदैव प्रयोग करना चाहिये । यह औषधि-अवस्थाको स्थापन करनेवाली और पलितरोगको नष्ट करनेवाली है, यह अश्विनी-कुमारोंके द्वारा अनुभव की हुई है ॥ ३३-३८ ॥

माणिभद्रमोदक ।

विडङ्गसाराभलकाभयानां पलं पलं
स्यात्रिवृतस्त्रयश्च । गुडस्य षड् द्वाद-
शभागयुक्ता मानेन त्रिंशद्दुटिका
विधेयाः ॥ ३९ ॥ निवारणे यक्ष्वरेण
सृष्टः स माणिभद्रः किल शाख्याभि-
क्षवे । अयं हि कुष्ठक्षयकासनाशनो
भगन्दरप्लीहगुदोदरार्तिजित् ॥ यथे-
ष्टचेष्टान्निविहारसेवी ह्यनेन वृद्धस्त-
रुणो भवेच्च ॥ ४० ॥

विडगसार, आमले और हरड ये प्रत्येक औषधि चार चार तोले, निसोत १२ तोले और गुड अठारह भाग लेवे । इन सबको एकत्र पीसकर ३० गोली या मोदक बनालेवे । यह औषधि-कुष्ठ, राजयक्ष्मा, खाँसी, भगन्दर, प्लीहा, गुदरोग और उदररोग इन सबको दूर करती है । इसपर यथेष्ट आहार, चेष्टा और विहार करे । इससे वृद्धमनुष्य भी तरुणताको

प्राप्त होता है यह माणिभद्र मोदक कुवेरने शाख्यभिधु मुनिके कष्टोंको निवारण करनेके लिए निर्माण किये है ॥ ३९ ॥ ४० ॥

गुडाद्यमोदक ।

गुडस्याष्टपलं पथ्या विंशतिः स्युः पलानि च । दन्तीचित्रकयोः कर्षाः पिप्पलीत्रिवृत्तोर्दश ॥ ४१ ॥ कृत्वैतान्मोदकानेकं दशमे दशमेऽहनि । स खादेदुष्णसेवी चाहारे निर्यन्त्रणास्त्वमी ॥ दोषघ्ना ग्रहणीषण्डुरोगार्शःकुष्ठनाशनाः ॥ ४२ ॥

गुड ८ पल, हरड २० पल, दंती, चीता, पीपल और निसोत ये प्रत्येक औषधि दश दश कर्ष लेवै । इन सबको एकत्र करके मोदक बनालेवे । एक एक मोदक दशवे दशवें दिन खाय और उष्णजलका अनुपान करे । इसपर आहारादिका कुछ विशेष परहेज नहीं है । ये मोदक वातादिदोष, संग्रहणी, पांडुरोग, बवासीर और कुष्ठको नष्ट करते है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

विरेकायौषधं पीतं न सम्यग्यदि रेचयेत् । पिबेदुष्णांभसा तत्र सैन्धवं दोषशान्तये ॥ ४३ ॥

जो विरेचनकी औषधिके पीनेपर अच्छे प्रकारसे विरेचन नहीं हो तो गरमजलमें सैयानमक डालकर पान करे ॥ ४३ ॥

हृत्कुक्ष्यशुद्धिं परिदाहकंडूर्विण्मूत्रसंगाश्च न सद्विरिक्ते । मूर्च्छा गुदभ्रंशकफातियोगाः शूलोद्गमश्चातिविरिक्तलिङ्गम् ॥ ४४ ॥

जब अच्छेप्रकारसे विरेचन होजाता है तब हृदय और कोखमें अशुद्धि, शरीरमें दाह, खुजली, मल और मूत्रका अवरोध ये लक्षण नहीं होते है । मूर्च्छा, गुदभ्रंश (काँचका निकलना) अत्यंत कफकी प्रवृत्ति और शूलका होना ये लक्षण अधिक विरेचन होनेके है ॥ ४४ ॥

गतेषु दोषेषु कफान्वितेषु नाभ्या लघुत्वे मनसश्च तुष्टौ । गतेऽनिले चाप्यनुलोमभावं सम्यग्विरिक्तम्मनुजं व्यवस्येत् ॥ ४५ ॥

कफके साथ सम्पूर्ण दोषोंके निकलजानेपर नाभिके चारों ओर हलकापन, मनमें प्रसन्नता और अधोवायुका उत्तमरीतिस अनुलामन होना ये सब लक्षण उत्तमरातस विरेचन हानक है ॥ ४५ ॥

मन्दाग्निमक्षीणमसाद्विरिक्तं न पाययेत्तद्विसे यवागूम । क्षीणं तृषार्त्तं सुविरेचितञ्च तन्वीं सुखोष्णां लघु पाययेत्ताम् ॥ ४६ ॥

मंदाग्निवाले अक्षीण और जिसको अच्छेप्रकारसे विरेचन नहीं हुआ हो ऐसे मनुष्यको उसी दिन यवागू नहीं देनी चाहिये किंतु क्षीण, तृषार्त्त पीडित और जिसको अच्छेप्रकारसे विरेचन होगया हो, ऐसे मनुष्यको पतली मंदोष्ण और हलकी यवागू पिलानी चाहिए ॥ ४६ ॥

छर्दिताक्तं क्रमं सर्वं धूपं मुक्त्वा प्रयोजयेत् । शोणितस्त्रावसंशुद्धिस्नेहयोजनलंघनैः ॥ ४७ ॥ वह्निर्यस्य ततो मन्दः स्याद्वैद्यस्तमुपाचरेत् । मद्यपो वातपित्ताढ्यो योऽल्पपित्तकफाश्रयः। पेयादिरहितस्तस्य तर्पणादिक्रमं दिशेत् ॥ ४८ ॥

अत्यन्त विरेक होनेपर वमनोक्त धूपपानको छोड़ कर शेष सम्पूर्ण वमनोक्त क्रिया करे । रुधिरस्त्राव, संशोधन, स्नेहयोग और लघन करानेसे जिसकी अग्नि मन्द होगई हो तो वध उसके अग्निदीपन करनेवाली चिकित्सा करे । मद्यको पीनेवाला, वातपित्तकी प्रकृति वाला और जिसके पित्त तथा कफ अल्प हो ऐसे मनुष्यको पेयाका त्याग कर केवल तर्पणादि क्रिया करे ॥ ४७ ॥ ४८ ॥

आस्थाप्य स्नेहितं तीक्ष्णै रेचयेद्धीनरेचितम् ॥ ४९ ॥

जिसके हीनरेचन हुआ हो उसको स्निग्ध करके आस्थापनवस्ति देकर तीक्ष्णरेचन देवे ॥ ४९ ॥

पद्मकोशीरनागाह्वचन्दनानि प्रयोजयेत् । अतियोगे विरेकस्य पानलेपनसेचनैः ॥ ५० ॥

अत्यत विरेचनके होनेपर पद्माल, खस, नागकेशर और चंदन इनको पान, लेपन और सेचनके द्वारा प्रयोग करे ॥ ५० ॥

**सौवीरपिष्टः सहकारकल्को नाभि-
प्रलेपादतिसारहन्ता ॥ ५१ ॥**

आमकी लालको काँजीमे पीसकर नाभिके ऊपर लेप करनेसे अत्यंत विरेचनके होनेसे उत्पन्नहुआ अतिसाररोग नष्ट होता है ॥ ५१ ॥

**शाल्मलीमूलकल्कश्च मस्तुना सह
संपिबेत् । गङ्गाप्रवाहतुल्यं हि ना-
शयेद् ग्रहणगिदम् ॥ ५२ ॥**

सेमलकी जडके कल्कको दहीके तोडमें पीसकर पान करनेसे गंगाके प्रवाहके समान वेगवाला भी संग्रहणीरोग तत्काल नष्ट होजाता है ॥ ५२ ॥

**अञ्जनं चन्दनोशीरं मज्जास्रं चाति-
योगतुत् । लाजचूर्णैः पिबेत्प्रन्थम-
तियोगहरं परम् ॥ ५३ ॥**

रसौत, चंदन, खस और आमकी मज्जा इनको पीसकर शतिल जलके साथ पान करनेसे अथवा खीलोंके चूर्णको मथके साथ सेवन करनेसे अत्यंत विरेचनसे हुआ विकार नष्ट होता है ॥ ५३ ॥

**दधारनालधात्रीचूर्णयुताः शक्तवः
प्रलेपेन । सन्तापारुचितृष्णावमन-
विरेकातियोगहराः ॥ ५४ ॥**

दही, काँजी, आमले और सन्नू इन सबको एकत्र पीसकर लेप करनेसे संताप, अरुचि, तृषा और अत्यत वमन तथा अत्यत विरेचनका विकार ये सब दूर होते हैं ॥ ५४ ॥

**क्षीणक्षयोरक्षतबालवृद्धा दीनोऽथ
शोषी भयशोकतप्तः । श्रान्तस्तृषार्त्तो
परिजीर्णभक्तो गर्भिण्यधो गच्छति
यस्य चासृक् ॥ ५५ ॥ नवप्रतिश्याय-
मदात्ययी च नवज्वरी या च नव-
प्रसूता । शल्यार्दिताश्चाप्यविरेच-
नीयाः स्नेहादिभिय त्वनुपस्कृताश्च
॥ ५६ ॥**

क्षीण, क्षय, उरःक्षत, बालक, वृद्ध, दीन, शोष-
रोगी, भय और शोकसे संतापित, श्रान्त(थकाहुआ)
तृषासे पीडित, अजीर्णमें भोजन करनेवाला, गर्भिणी
स्त्री, अधोगत रक्तपित्तरोगी, नवीन प्रतिश्यायरोगी,
मदात्ययरोगी, नवीन ज्वररोगी, नवीन प्रसूता स्त्री,
शल्यस पीडित, अर्दितरोगी और जिनके पहिले
लेहन कर्म नहीं किया हो ऐसे मनुष्योंको विरेचन
नहीं देना चाहिये ॥ ५५ ॥ ५६ ॥

**अत्यर्थपित्ताभिपरीतदेहा विरेचये-
त्तानपि मन्दवीर्यैः । विरेचनैर्या-
न्ति नरा विनाशमज्ञप्रयुक्तैरविरेच-
नीयाः ॥ ५७ ॥**

यदि इन उपर्युक्त रोगियोंके भी पित्त अधिक
बढ गया हो तो मंदवीर्यवाली मधुर औषधियोंके
द्वारा विरेचन देवे । जो मूर्ख मिथ्याभिमानी वैद्य
ऐसे रोगियोंको तीक्ष्ण विरेचन दे देते हैं इससे वे
मनुष्य नाशको प्राप्त होजाते हैं ॥ ५७ ॥

**नचातिस्लिग्धकायस्य दद्यात्स्नेहवि-
रेचनम् । दोषाः प्रचयाविता भूयो
लीयन्ते तेन वर्त्मसु ॥ ५८ ॥**

अत्यन्त स्निग्ध देहवाले, अथवा जिसने अत्यन्त
स्नेहपान किया हो, उसको स्नेहविरेचन नहीं देवे,
क्योंकि दोष स्थानोसे चलायमान होकर फिर मार्गमें
लँय होजाते हैं ॥ ५८ ॥

**विषाभिघातपिडिकाः शोफपांडुवि-
सर्पिणः । नातिस्लिग्धा विशोध्याः
स्युस्तथा कुष्ठप्रमेहिणः ॥ ५९ ॥**

विषरोगी, अभिघात, पिडिका और शोथसे युक्त
पांडुरोगी, विसर्परोगी, अत्यन्त स्निग्ध, कुष्ठरोगी और
प्रमेहरोगी इनको भी विरेचन नहीं देना चाहिये ॥ ५९ ॥

**विरुक्ष्य स्नेहसात्म्यन्तु भूयः सस्ने-
ह्यरेचयेत् । तेन दोषा हतास्तस्य
भवन्ति श्लथबन्धनाः ॥ ६० ॥**

जो स्वभावसे ही स्निग्ध है, उनको पहले रुक्ष
करके और फिर स्निग्ध करके विरेचन देवे । इस
प्रकार करनेसे दोष नष्ट होजाते हैं और उसके बन्धन
शिथिल होजाते हैं ॥ ६० ॥

बुद्धेः प्रसादम्बलमिन्द्रियाणां धा-
तुस्थिरत्वं ज्वलनाभिवृद्धिम् । चि-
राच्च पाकं वयसः प्रकुट्याद्विरेचनं
सम्यगुपास्यमानम् ॥ ६१ ॥

अच्छे प्रकारसे विरेचन होजानेसे बुद्धिमें प्रसन्नता,
इन्द्रियोमें सामर्थ्य, धातुओमें स्थिरता, अग्निकी
वृद्धि और बहुत दिनोंमें आयुका पकना अर्थात्
वृद्धताका होना ये सब लक्षण होते हैं ॥ ६१ ॥

यथोदकानां स्थिरजङ्गमानां जले-
ऽपनीते ध्रुवमेव नाशः । पित्ते हते
त्वेषुपद्रवाणां पित्तात्मकानां ध्रुव-
मेव नाशः ॥ ६२ ॥

जिसप्रकार जलके हटजानेसे जलके अश्रित रह-
लेवाले स्थावर और जंगमोका निश्चय नाश होजाता
है, उसीप्रकार पित्तके नष्ट होनेपर पित्तजनित
रोगोका अवश्य नाश होता है ॥ ६२ ॥

सव्योषं पिप्पलीमूलं त्रिवृद्धन्ती स-
चित्रकम् । तच्चूर्णं गुडसम्मिश्रं भक्ष-
येत्प्रातरुत्थितः ॥ ६३ ॥ एतद्गुडाष्टकं
चूर्णं बलवर्णाग्निवर्द्धनम् । शोथोदा-
वर्त्तगुल्मघ्नं ग्रीहपाण्ड्यामयापहम् ॥ ६४ ॥

त्रिकुटा, पीपलामूल, निसोत, दंती और चीता
इन सबको चूर्ण करके गुडमें मिलाकर प्रतिदिन
प्रातःकाल सेवन करे । यह गुडाष्टकचूर्ण-बल, वर्ण
और अग्निको बढ़ाता है तथा सूजन, उदावर्त्त, गुल्म,
ग्रीहा और पांडुरोगको नष्ट करता है ॥ ६३ ॥ ६४ ॥

पश्चाद्विरिक्तो वान्तश्च ततश्चापि नि-
रूहणम् । निरूहस्त्वनुवास्यः स्या-
त्सप्तरात्राद्विरेचितः ॥ ६५ ॥

विरेचन और वमनके पश्चात् निरूहवस्ति देवे
और निरूहवस्तिके बाद विरेचनके सात दिनके
पश्चात् अनुवासनवस्ति देवे ॥ ६५ ॥

पथ्यापथ्य ।

कृतः शिराव्यधो यस्य कृतं यस्य च
शोधनम् । मासं परिहरेज्जन्तुर्यावन्नो
बलवान् भवेत् ॥ ६६ ॥ क्रोधायासौ

मैथुनश्च दिवास्वप्नोच्चभाषणे । पानं
यानासने स्थानं चिरञ्च क्रमणं हि-
मम् ॥ ६७ ॥ सम्भोगतोययोः सेवा
प्रवातातपयोस्तथा । विरुद्धाध्यश-
नासात्म्यभोजनानि विशेषतः ॥ ६८ ॥

जिसके शिरावेध (फरत) हुआ हो और जिसके
विरेचनादि सशोधन किया हो उसको एक महीने-
पर्यन्त अर्थात् जयतक वह चलवान् न हो तबतक
क्रोध, परिश्रम, मैथुन, दिनमें सोना, उच्चभाषण, पान,
हाथी, घोडे आदिकी सवारी पर चढना, भ्रमण करना,
शीत, अथवा शीतल जल, स्त्रीप्रसंग, पवन, धूप
इनका सेवन, विशेषकर विरुद्ध भोजन, भोजन पर
भोजन और असात्म्यभोजन ये सब त्यागदेने चाहिये
॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकाया विरेचनाधिकार
समाप्त ॥ ७८ ॥

अथ वस्तिकर्मणाधिकार ।

वस्तिर्वति च पित्ते च कफे रक्ते च
शस्यते । संसर्गे सान्निपाते च वस्ति-
रेव सदा हितः ॥ १ ॥

वात, पित्त, कफ, रक्त, वातपित्त, वातकफ, कफ-
पित्त और त्रिदोषजरोरुग इन सब रोगोंमें वस्तिकर्म,
पिचकारी लगाना सदैव हितकारी है अर्थात् उपर्युक्त
सम्पूर्ण रोगोंमें वस्तिकर्म करना चाहिये ॥ १ ॥

वायोवेगं समुद्धन्तं नान्या वस्तिभृते
क्रिया । पवनाविद्धतोयस्य वेला वे-
गमिवोदधेः ॥ २ ॥

सम्पूर्ण रोगोंमें वायु प्रधान है इस कारण जब अत्यंत
वायुका वेग बढकर शरीरको नाश करने लगता है,
तबवायुका वेगको नष्ट करनेवाली वस्तिके सिवा अन्य
क्रिया नहीं है । जिसप्रकार पवनके वेगसे जब समुद्र
उभरता है अर्थात् उसमें उबारमाटा आता है तब

उसके वेगको रोकनेके लिये सिवाय कूल मय्यादाके और कोई समर्थ नहीं होता ॥ २॥

**वाते वातोल्वणे व्याधौ वस्तिः शस्तः
स च त्रिधा । निरूहोऽनुवासनाख्यश्च
लिङ्गे चोत्तरसंज्ञितः ॥ ३॥**

अतएव वातजनितरोगोंमें अथवा वातकी उल्वणतामें वस्ति अतीव हितकारी है । यह वस्ति निरूह अनुवासन और उत्तर इन भेदोंसे तीन प्रकारकी है ॥ ३ ॥

**कषायक्षीरतो वस्तिर्निरूहः स नि-
गद्यते । यः स्नेहैर्दीयते स स्यादनुवा-
सनसंज्ञकः ॥ ४ ॥**

काथ और दूधके द्वारा जो वस्ति दीजाती है उसको निरूहवस्ति कहते हैं । घी अथवा तैलादिकके द्वारा जो वस्ति दीजाती है, उसको अनुवासन कहते हैं ॥ ४ ॥

**वस्तिभिर्दीयते यस्मात्तस्माद्वस्ति-
रिति स्मृतः । निरूहस्यापरं नाम
प्रोक्तमास्थापनं बुधैः ॥ ५ ॥**

इसमें मृग आदिकोंके मूत्राशयकी कोथलीरूप साधनसे पिचकारी दीजाती है, इसकारण इस पिचकारीको वस्ति कहते हैं । वस्ति मूत्राशयका नाम है । निरूहवस्तिका दूसरा आस्थापनवस्ति है ऐसा विद्वानोंने कहा है ॥ ५ ॥

**निरूहां दोषहरणाद्रोहणादथवा
तनोः । आस्थापयेद्वयो देहं यस्मा-
दास्थापनः स्मृतः ॥ ६ ॥**

निरूहवस्ति दोषोको हरण करती है और देहको आरोहण करती है, इसकारण इसको निरूह ऐसा कहते हैं । आस्थापनवस्ति अवस्था और देहको स्थापन करती है, इस कारण इसको आस्थापनवस्ति कहते हैं ॥ ६ ॥

**निशानुवासनात् स्नेहोऽनुवासनश्चा-
नुवासनः ॥ ७ ॥**

अनुवासनवस्तिमें रात्रिमें स्नेहके अनुवासित होनेके कारण इसको अनुवासनवस्ति कहते हैं ॥ ७ ॥

**विरिक्तसम्पूर्णहिताशनस्य आस्था-
प्य शय्यामनुदीयते यत् । तदुच्यते
वाप्यनुवासनश्च तेनानुवासश्च बभूव
नाम ॥ ८ ॥**

अच्छेप्रकारसे विरंचन होनेपर उत्तम प्रकारसे पथ्य सेवन करनेवाले मनुष्यको शय्यापर स्थापन करके पश्चात् यह अनुवासन दीजाती है, इसकारण इसको " अनुवासनवस्ति " कहते हैं ॥ ८ ॥

**उत्कृष्टावयवे दानाद्वस्तिरुत्तरसंज्ञि-
तः । निरूहमात्रा प्रथमे प्रकुञ्चो वत्सरे
परम् ॥ ९ ॥ प्रकुञ्चवृद्धिः प्रत्यब्दं
यावत् षट्प्रसृतास्ततः । प्रसृतं वर्द्ध-
येदूर्ध्वं द्वादशाष्टादशावधि ॥ १० ॥
आसप्ततेरिदं मानं दशैव प्रसृतं पर-
म् । यथायथं निरूहस्य पादो मात्रा-
नुवासने ॥ ११ ॥**

उत्कृष्ट अवयवमें प्रदान करनेसे इसको उत्तरवस्ति कहते हैं । प्रथम वर्षमें निरूहकी मात्रा प्रकुञ्च अर्थात् चार तोले भरकी है । फिर क्रम क्रमसे प्रत्येक वर्षमें चार चार तोलेकी वृद्धि तबतक करनी चाहिए जबतक कि ६ प्रसृत पूरे हों । जब छः प्रसृत होजायें तब प्रत्येक वर्षमें एक २ प्रसृत मात्रा बढ़ावे । इस प्रकार अठारहवर्षकी अवस्था पर्यन्त बारह प्रसृतकी मात्रा होजायगी । यह क्रम सत्तरवर्षतक रक्खे और फिर सत्तरवर्षके पश्चात् दश प्रसृतकी मात्रा दें । निरूहमें मात्राका जो जो क्रम कहा है उसीके अनुसार चांथाई मात्रा अनुवासनमें जाननी ॥ ९ ॥ ॥ १० ॥ ११ ॥

वस्तियन्त्रनिर्माणविधिः ।

**सुवर्णरूप्यत्रपुताम्ररीतिकांस्यायसा-
स्थिद्रुमवेणुदन्तैः । नलैर्विषाणैर्मणि-
भिश्च तैस्तैः कार्याणि नेत्राणि सुक-
र्णिकानि ॥ १२ ॥**

सुवर्ण, चांदी, राग, तांबा, पीतल, कासी, लोहा, हड्डी, वृक्ष, वांस, दंत, नल, सींग और मणि इनके द्वारा सुन्दर कर्णिकावाली वस्ति देनेकी नली बनावे १२

षड् द्वादशाष्टांगुलसम्मितानि षड्-
विंशतिर्द्वादशवर्षजानाम् । स्युर्मुद्ग-
कर्कधुसतीनवाहिच्छिद्राणि वत्या
पिहितानि चापि ॥ १३ ॥

एक वर्षसे लेकर छः वर्षकी अवस्थावाले बाल-
कके ६ अंगुलकी नली प्रयोग करे । छैसे बारह वर्ष
की अवस्थावाले मनुष्यके आठ अंगुलकी नलीका
प्रयोग करे । और बारहवर्षसे लेकर बीसवर्षकी अव-
स्थावाले मनुष्यके बारह अंगुलकी नलीका प्रयोग
करे । छ. अंगुलकी नलीमें मूंगकी बराबर, आठ
अंगुलकी नलीमें मटरकी बराबर और बारह अंगु-
लकी नलीमें बेरकी गुठलीकी बराबर छिद्र रखना
चाहिये ॥ १३ ॥

यथावयोंऽगुष्ठकनिष्ठिनाभ्यां मूला-
ग्रयोः स्युः परिणाहवन्ति । ऋजूणि
गोपुच्छसमाकृतीनि श्लक्ष्णानि च
स्युर्गुटिकासुखानि ॥ १४ ॥

नली यथा अवस्थानुसार मूलमें अगुठके समान
और अग्रभागमें कनिष्ठा अंगुलके समान मोटी,
कोमल, गायके पूंछके समान जडमें मोटी और उसके
पीछे क्रमक्रमसे सूक्ष्म चिकनी और गोल
सुखवाली होनी चाहिये ॥ १४ ॥

स्यात्कर्णिकैकाग्रचतुर्थभागे मूलाश्रिते
वस्तिनिबन्धने द्वे । जारङ्गवो माहि-
षहारिणौ वा स्याच्छौकरो वस्तिर-
जस्य वापि ॥ १५ ॥

नलीके तीनभाग छोडकर चौथे भागरूप जडमें
२ कर्णिका बनावे । उन कर्णिकाओंमें वद्ध वैलकी,
भँसकी, हिरनकी, सूअरकी अथवा बकरेके मूत्राश-
यकी कोथलीको २ बंधनोंसे बाधकर मिलादेवे ॥ १५ ॥

दृढस्तनुर्नष्टशिरोविगन्धः कपायरक्तः
सुमृदुस्तु सिद्धः । नृणां वयो वीक्ष्य
यथानुरूपं नेत्रेषु योज्यस्तु सुबद्ध-
सूत्रः ॥ १६ ॥

यद्य वस्ति (कोथली) दृढ, पतली, शिरा और
गंधरहित, कपके रंगमें रगी हुई, नरम तथा सुन्दर

और उत्तम प्रकारसे सूतसे मनुष्योंकी अवस्थाको
विचार कर पिचकारीमें बांधनी चाहिये ॥ १६ ॥

नेत्राभावे हिता नाडी नलवंशास्थि-
सम्भवा । वस्त्यभावे हितं चर्म
वद्यं वापि हितं घनम् ॥ १७ ॥

जो उपर्युक्त प्रकारके नेत्र (नली) न मिले तो
नल, बॉस और हड्डी आदिकी नली बना लें और
जो पिचकारी न मिले तो चर्म अथवा मोटे कप-
डेकी बस्ति बनावे ॥ १७ ॥

द्वादशांगुलकं नेत्रं कलाययवरन्ध्र-
कम् । अंगुले कर्णिकायुक्तं मुखे वृत्तं
समं मृदु ॥ १८ ॥

उपर्युक्त वस्तिके बारह अंगुलके नेत्र (नली)
बनावे और उसमें मटर अथवा जौके समान छिद्र
करे और एक अंगुलकी कर्णिका बनावे और उसका
मुख गोल, समान और नरम बनावे ॥ १८ ॥

विरेचनात्सप्तरात्रे गते जातबलाद्य
वै । कृताहाराय सायाह्ने वस्तिर्दयो-
ऽनुवासनः ॥ १९ ॥

विरेचन देनेके सात दिन पश्चात् जब शरीरमें
अच्छे प्रकारसे बल आजाय तब अनुवासनक योग्य
रोगीको भोजन कराकर संध्या समय अनुवासन
बस्ति देवे ॥ १९ ॥

उत्तमा स्यात्पलैः षड्भिर्मध्यमा
स्यात्पलैस्त्रिभिः । तदूर्ध्वेन च हीना
स्यात्त्रिधामात्रानुवासने ॥ २० ॥

अनुवासनवस्तिमें स्नेहकी छः पलकी उत्तम मात्रा
है, तीन पलकी मध्यम मात्रा है और डेढपलकी कनिष्ठ
मात्रा है । इस प्रकार अनुवासनकी तीन मात्रा है २०

प्रसृतस्य पलाूर्ध्वेन पलस्य पित्तुना
तथा । तदूर्ध्वस्याूर्ध्वकर्षेण वृद्धिः का-
र्या यथाक्रमम् ॥ २१ ॥ षट्पल त्रिपल
साूर्ध्वपलं पूर्णं यथा भवेत् ॥ २२ ॥

स्नेहकी मात्रा अवरथानुसार आधाकर्ष, एक कर्ष,
एक तोला, दो तोले, चार तोले और आठ तोलेके क्रमसे
बढाकर डेढपल, तीनपल आर छः पल पर्यन्त करे

अर्थात् कनिष्ठ मात्रा डेढ पल पर्यन्त करे, मध्यम मात्रा तीन पल पर्यन्त और उत्कृष्ट मात्रा छः पल पर्यन्त करे ॥ २१ ॥ २२ ॥

देवदारुवचारास्नाशताह्लाकुष्ठसैन्धवैः । अवचूर्णम्प्रदातव्यं षट्चतुर्द्वय-
माषकैः ॥ २३ ॥

स्नेहमें देवदारु, वच, रायसन, सौफ, कूट और सैधानमक इनका चूर्ण बनाकर उत्तम मात्रामें छः मासे, मध्यममें चार मासे और कनिष्ठमें दो मास मिलावे ॥ २३ ॥

यद्वा सैन्धवचूर्णेन शताह्वेन च सं-
युतम् । चूर्णं माषं पले स्नेहे सिन्धुज-
न्मशताह्वयोः ॥ २४ ॥

अथवा सैधानमक और सौफका चूर्ण मिलावे किन्तु सैधेनमक और सौफका एक मासा चूर्ण एकपल स्नेहमें मिलावे ॥ २४ ॥

क्षीरं न चैद्वैतरणं प्रदाय ह्यहे त्र्यह
वाप्यनुवासनीयः ॥ २५ ॥ उत्सृष्टा-
निलाविष्मूत्रे नरे वस्ति निधापयेत् ।
अन्यथा निहितो वस्तिर्नैवान्तः स-
म्प्रपद्यते ॥ २६ ॥

अनुवासनवस्ति देने योग्य रोगीको सन्तर्पणके लिये दूसरे, तीसरे दिन भी दुग्ध पान कराकर केवल रोगीके मलमूत्र और वायुका त्याग कराकर पश्चात् अनुवासनवस्ति देवे । क्योंकि, मलमूत्रके भीतर रहनेपर स्नेहवस्ति भीतर अच्छे प्रकारसे प्रवेश नहीं कर सकती है ॥ २५ ॥ २६ ॥

प्रसुतं वामपार्श्वेण कृतान्नमनुवास-
येत् ॥ २७ ॥

प्रथम रोगीको भोजन कराकर और कुछ काल विश्राम अथवा भ्रमण कराकर पश्चात् चाई करवटसे सुलाकर अनुवासनवस्ति देवे ॥ २७ ॥

वामाश्रया हि ग्रहणीगुदश्च तत्पार्श्व-
संस्थस्य गुदोपलब्धिः । लीयन्त एवं
वलयश्च तस्मात्सव्ये च पार्श्वे हित-
वस्तिदानम् ॥ २८ ॥

ग्रहणीगुदा वच अगके आश्रित है उसके पार्श्वमें गुदाकी उपलब्धि है और उसमें गुदाकी वली

लीन है, इस कारण बाँये पार्श्वमें वस्ति देनी चाहिये ॥ २८ ॥

प्रसारितैकजंघेन कार्याऽन्योपरिकु-
श्विता । वस्तिं सव्ये करे कृत्वा द-
क्षिणेनावपीडयेत् ॥ २९ ॥

एक जंघाको फैलाकर और दूसरीको सकोडकर तथा बाँये हाथमें वस्तिको लेकर दाहिने हाथसे दवा-
कर वस्ति लगावे ॥ २९ ॥

तथास्यनेत्रं प्रणयेत् स्निग्धस्विन्नमुखं
गुदे । उच्छ्वास्य बस्तवदनं बद्धं ह-
त्तमकम्पयन् ॥ ३० ॥ पृष्ठवंशम्प्रति
तता नातिद्रुतविलम्बितम् । नाति-
वेगं नातिमन्दं सकृदेव प्रपीडयेत् ॥
३१ ॥ सावशेषमकुर्वीत वायुः शो-
षे हि तिष्ठति । निरूहदानेऽपि वि-
धिरयमेव समीरितः ॥ ३२ ॥ शी-
ते वसन्ते च दिवानुवास्यो रात्रौ
शरद्व्रीष्मघनागमेषु ॥ ३३ ॥

वैद्यको उचित है कि, रोगीकी गुदाको प्रथम घृता-
दिसे चिकना और स्वोदित करके पश्चात् नलीके मुखको चिकना कर गुदामें रखवे और अपना श्वास रोककर, वस्तिके मुखको बाँवकर, हाथको निष्कंप करके, पीठके बॉमको न अत्यन्त शीघ्रतासे न अत्यन्त विलम्बसे, न अत्यन्त वेगसे और न अत्यन्त धीरे किन्तु एकदम पीडित करके सम्पूर्ण वस्तिको प्रविष्ट करदेवे । क्योंकि वायु शेषमें ही क्षुपित होती है । निरूहवस्तिकी भी यही विधि जाननी । शीत और वसन्तऋतुमें दिनमें अनुवासनवस्ति देनी चाहिये और शरद्व, ग्रीष्म, तथा वर्षाऋतुमें रात्रिके समय अनुवासनवस्ति देनी चाहिये ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

स्नेहवस्तिर्विधेयस्तु नाविशुद्धस्य
देहिनः । स्नेहो वीर्यं तथा दत्ते देहं
नानुविसर्पति ॥ ३४ ॥

अशुद्ध शरीरवाले रोगीके स्नेहवस्ति नहीं देनी चाहिये, क्योंकि अशुद्ध शरीरमें दिया हुआ स्नेह वीर्यको ग्रहण करता है और शरीरमें नहीं फैलता ॥ ३४ ॥

अशुद्धमपि वातेन केवलेनातिपीडितम् । अहोरात्रस्य कालेषु सर्वेष्वेवानुवासयेत् ॥ ३५ ॥

किन्तु केवल वायुसे अत्यन्त पीडित अशुद्ध शरीरवाले रोगीको भी दिनरातके सब कालोंमें अनुवासनवास्ति देवे ॥ ३५ ॥

ततः प्राणिहिते स्नेह उत्तानी वाक्छतं भवेत् । प्रसारितैः सर्वगात्रैस्तथा धीर्यं प्रसर्पति ॥ ३६ ॥

शरीरमें स्नेहके अच्छप्रकारसे पहुँच जानेक पश्चात्, सौ मात्रातक देहको चित्त करके शयन करे । क्योंकि सम्पूर्ण अंगोंको फैलानसे स्नेह सम्पूर्ण शरीरमें फैल जाता है ॥ ३६ ॥

आकुश्वयेच्छनैस्त्रीस्त्रीन्सक्थिबाहु ततः परम् । ताडयेत्तलयोरैनं त्रीस्त्रीन्वाराच्छनैः शनैः ॥ ३७ ॥

फिर धीरे धीरे तीन तीन बार सक्थि और बाहुको सकोडे । पश्चात् उसके तलुओंको, तीन तीन बार धीरे धीरे हाथोंसे थपोडे ॥ ३७ ॥

स्फिजोश्चैनं ततः श्रोणीं शय्यां त्रींस्तूक्ष्णपेदुबुधः । एवं प्राणिहिते वस्तौ मन्दायासोऽथ मन्दवाक् ॥ ३८ ॥

स्वास्तीर्णे शयने काममासिताचारिके ततः । कूर्परे जानुनी चैव कुर्यात्त्रीणि गतागतम् ॥ ३९ ॥ पाणिपादतले चास्य हन्तव्ये मुष्टिना तदा । त्रिकसंचालनं चापि कुर्याद्धारत्रयं ततः ॥ ४० ॥

पश्चात् दोनों नितम्ब और कटिको धीरे धीरे तीन तीन बार थपोडे । फिर उसकी शय्याको उचकाकर अपने हाथोंसे तीन तीन बार पहलेके अनुसार ठोके पश्चात् पात्रोंके ओरकी शय्याको उठावे । इस प्रकार विधान करनेपर रोगीको परिश्रम न करने दे तथा थोडा बोलने देवे । इस प्रकार वस्तिके विधानके आचरणोंमें ध्यान रखना हुआ

विस्तृत शय्यापर सुखपूर्वक बैठे । फिर इसकी कोहनी और जानुप्रदेगका भी अच्छे प्रकारसे थपोडे तथा हाथ और पात्रोंके तलुओंको मुष्टिसे ताडित करे । पश्चात् तीन बार धीरे धीरे त्रिक (पृष्ठवज) स्थानको संचालन करे ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥

भवेत्सुखोष्णश्च तथा निरेति सहसा सुखम् । यथोचितात्पादहीनं भोजयित्वानुवासयेत् । नित्यमेकान्तरे वापि दोषकायामन्यपेक्षया ॥ ४१ ॥

फिर मंदोष्ण जलसे कुछ एक सींचे इस प्रकार करनेसे सहसा सुख उत्पन्न होता है । नित्य अथवा एक दिनको छोडकर तीसरे दिन यथोचित भोजनसे पादहीन (अर्थात् पौनमात्रा) भोजन कराकर रोगीके यथादोष, शरीरकी अवस्था और अंग्रिको विचार कर अनुवासनवास्ति देवे ॥ ४१ ॥

स्नेहेन पाष्ण्यङ्गुलिपिण्डिकाद्या ये चापि गात्रावयवा रुगार्ताः । तांश्चावमृद्नीत सुखं ततश्च निद्रासुपासीत कृतोपधानः ॥ ४२ ॥

पश्चात् पार्श्व, अंगुलि, पिण्डिका तथा अन्यान्य जो जो शरीरके अवयव पीडित हो उन सबको स्नेहसे मलकर सुखपूर्वक शय्यापर शयन करावे और अच्छे प्रकारसे उसके सिरहाने तकिया लगा देवे ॥ ४२ ॥

अनुवासिताय दातव्यमितरेऽह्नि सुखोदकम् । धान्यशुण्ठीकषायं वा स्नेहव्यापत्तिनाशनम् ॥ ४३ ॥

अनुवासनवास्ति दिये हुए मनुष्यको दूसरे दिन मंदोष्ण जल पान करावे अथवा धनियोँ और सोठका काथ बनाकर स्नेहके विकारोको नष्ट करनेके लिये पिलावे ॥ ४३ ॥

पित्तोत्तरे कटुष्णाम्भस्तावन्मात्रं पिबेद्दु । स्नेहाजीर्णं शमयति श्लेष्माणं तद्भिन्नत्ति च ॥ ४४ ॥

पित्तोत्थणरोगोमें मंदोष्ण जल तबतक पीना चाहिये जबतक कि स्नेहका अजीर्ण शमन न हो जाय और कफ न फट जाय ॥ ४४ ॥

पवनस्यानुकूलत्वं कुर्यादुष्णोदकं
नृणाम् । काथार्द्धमात्रया प्रातर्धान्य-
शुष्ठीजलं पिबेत् ॥ ४५ ॥

वायुकी गतिके अनुकूल मनुष्योको उष्णजल
पिलावे । प्रातःकाल धनिये और साँठको जलमें पका
कर काथकी आधीमात्राके परिमाणसे सेवन करे ४५

यस्यानुवासनो दत्तः सकृदन्वक्षमां
ब्रजेत् । अत्युष्णो वातिशीतो वा
वायुना वा प्रपीडितः ॥ ४६ ॥ अ-
मात्रोऽधिकमात्रो वा गुरुत्वाद्बहुभे-
षजः । तस्यान्योऽल्पतरो देवो न
हि स्निह्यति तिष्ठति ॥ ४७ ॥

जिसके एकवार अनुवासनवस्ति देनेसे अत्यन्त
उष्णता, अत्यन्त शीतलता अथवा वायुके द्वारा प्रपी-
डित होनेके कारण या अधिकमात्रा, वा मात्राहीन
होनेसे किम्वा औषधियोंके भारीपनसे अथवा औष-
धियोंकी अधिकतासे स्नेह बाहर निकलआवे तब
उसको फिर स्नेहकी अल्पमात्रा देवे । क्योंकि, वस्ति-
के विन. स्निग्धता नहीं होती ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

त्रीण्यस्य यामाननुवर्त्तते च स्नेहो
नरः स्यात्स विशुद्धदेहः ॥ ४८ ॥

जिसके वस्तिके द्वारा दिया हुआ स्नेह तीन पहर-
में फिर बाहर निकल आता है, उसको शुद्धशरी-
रवाला जानना ॥ ४८ ॥

अशुद्धमपि वातेन केवलेनातिपीडि-
तम् । स्नेहप्रगाढैर्भातिमात्रिरूहैः समु-
पाचरेत् ॥ ४९ ॥

बुद्धिमान् वैद्य केवल वायुसे अत्यन्त पीडित हुए
अशुद्ध शरीरवाले मनुष्यको भी गाढ स्नेहोके द्वारा
हिरूहणवस्ति देवे ॥ ४९ ॥

रूक्षस्य बहुवातस्य द्वौ त्रीन्वाप्य-
नुवासनान् । दत्त्वा स्निग्धतनुं ज्ञात्वा
नतः पश्चान्निरूहयेत् ॥ ५० ॥

रूक्षशरीरवाले और अत्यन्त वायुकी उल्लवणता-
वाले मनुष्योंके दो तीन बार अनुवासनवस्ति देकर
जब देखे कि, शरीर स्निग्ध होगया है तब निरूहण
वस्ति देवे ॥ ५० ॥

न चाभुक्तवतः स्नेहः प्रणिधेयः कथ-
ञ्चन । सूक्ष्मत्वात् शून्यकोष्ठात् क्षिप्र-
मूर्ध्वमधो नयेत् ॥ ५१ ॥

विना भोजन किये हुए मनुष्यके कदापि स्नेहन-
वस्ति नहीं देनी चाहिये, क्योंकि स्नेह सूक्ष्म होनेके
कारण खाली कोठमेंसे नीचेही वमन और विरेचनके
द्वारा बाहर निकल जाता है ॥ ५१ ॥

एकं तथा त्रीन् कफजे विकारे पित्ता-
त्मके पञ्च तु सप्त वापि । वाते तु
चैकादशधा पुनर्वा बस्तीनयुग्मान्
कुशली विदध्यात् ॥ ५२ ॥

कफके रोगमें एक अथवा तीन वस्ति देवे । पित्तके
रोगमें पांच अथवा सात वस्ति देवे और वायुके
रोगमें ग्यारह वस्ति देवे । इसप्रकार चतुर वैद्य
प्रत्येक रोगमें अनुक्रमसे अयुग्म वस्ति देवे ॥ ५२ ॥

सदानुवासयेद्भुक्तं सार्द्रपाणिं नरं भि-
षक् । ज्वरं विदग्धभुक्तस्य कुर्यात्
स्नेहः प्रयोजितः ॥ ५३ ॥

वैद्यसदैव भोजन किये हुए मनुष्यके दोनो हाथोंको
भिजोकर अनुवासनवस्ति देवे । विदग्ध भोजन कर-
नेवाले मनुष्यके दिया हुआ स्नेह ज्वरको उत्पन्न
करता है ॥ ५३ ॥

न चातिस्निग्धमशनं भोजयित्वा नु-
वासयेत् । मदं मूर्च्छाञ्च जनयेद्विधा
स्नेहः प्रयोजितः ॥ ५४ ॥

अत्यन्त स्निग्ध भोजनको खिलाकर भी मनु-
ष्यको अनुवासनवस्ति नहीं देवे । क्योंकि एक भोज-
नका और दूसरा वस्तिका इस प्रकार २ बारका
प्रयोग किया हुआ स्नेह-मद और मूर्च्छाको उत्पन्न
करता है ॥ ५४ ॥

स्नेहवस्तिं निरूहं वा नैकमेवाभ्य-
सेचिरम् । स्नेहात्पित्तकफोत्क्लेशौ नि-
रूहात्पवनाद्द्रयम् ॥ ५५ ॥

केवल एक स्नेहनवस्ति अथवा अनुवासनवस्तिको
ही बहुत दिनोतक नहीं देवे । क्योंकि स्नेहनवस्तिसे

पित्त और कफका उत्कलेश होता है और निरूहणवस्तिसे वायुका भय होता है ॥ ५५ ॥

तस्मान्निरूहोऽनुवास्यो निरूह्यश्वा-
नुवासितः । नैवं पित्तकफोत्कलेशो
स्यातां न पवनाद्भयम् ॥ ५६ ॥

इसकारण अनुवासनवस्ति देनेके पश्चात् निरूहण वस्ति देवे और निरूहणवस्तिके पश्चात् अनुवासन देवे क्योंकि इसप्रकार करनेसे न पित्त और न कफका उत्कलेश होता है और न वायुका भय होता है ॥ ५६ ॥

निरूहशोधितैर्मार्गैः स्नेहः सम्यग्वि-
सर्पति । अपेतसर्वदोषासु नाडीष्विव
बहिर्जलम् ॥ ५७ ॥

जब निरूहवस्तिसे मार्ग अच्छे प्रकार शुद्ध होजाते है तब स्नेह शरीरमे अच्छे प्रकारसे फैलजाताहै जिस प्रकार नलोमेसे कूडा आदिके साफ होजानेपर जल बिना रुके निकला चला जाता है ॥ ५७ ॥

अहोरात्रादपि स्नेहः प्रत्यागच्छन्न
दुष्यति । कुर्याद्द्विस्तिगुणांश्चापि जी-
र्णस्त्वल्पगुणो भवेत् ॥ ५८ ॥

स्नेहनवस्तिसे दिया हुआ स्नेह जो एक दिनरातमे बाहर निकल आता है तो वह कुछ भी विकार नहीं करता किन्तु और गुणोको करता है और जो वह स्नेह पचजाता है तो बहुत ही अल्प गुण करता है ५८

यस्य नोपद्रवं कुर्यात् स्नेहवस्तिर-
निःसृतः । सर्वोऽल्पो वावृतो रौक्ष्या-
दुपेक्ष्यः संविजानता ॥ ५९ ॥

जिस मनुष्यको नहीं निकलने पर स्नेहवस्ति यदि कुछ उपद्रव नहीं करे तो मनुष्यके रूक्ष होनेसे उसके देहमे समस्त स्नेह काममें आगया ऐसा समझकर चतुर वैद्य उसकी उपेक्षा करे अर्थात् उस स्नेहको व हर निकालनेका यत्न नहीं करे ॥ ५९ ॥

अनायान्तमहोरात्रात् स्नेहं सोपद्रवं
हरेत् । स्नेहवस्तावनायाते नान्यः
स्नेहः प्रशस्यते ॥ ६० ॥

जो दिनरातमे भी स्नेह नहीं निकले तो उसको उपद्रव सहित निकाल देवे। जवतक स्नेहनवस्ति वा

हर नहीं आवे तवतक दूमरी स्नेहनवस्तिका प्रयोग न करे ॥ ६० ॥

कुष्ठक्रमुककल्कन्तु पाययेत्तक्रसंयु-
तम् । औष्ण्यात्तेक्ष्ण्यात्सरत्वाच्च व-
सिंति तस्यानुलोमयेत् ॥ गोमूत्रेण त्रि-
वृत्पथ्याकल्कं वातानुलोमनम् ॥ ६१ ॥

कूठ और सुपारीके कल्कको तक्रके साथ सेवन करावे । यह उष्ण, तीक्ष्ण और सारक होनेसे वस्ति-को अनुलोमन करता है। निसोत और हरडका कल्क बनाकर गोमूत्रके साथ सेवन करानेसे वायुका अनुलोमन होता है ॥ ६१ ॥

अशुद्धस्य मलोन्मिश्रः स्नेहो नैति
यदा पुनः । तदाङ्गसादनाध्मानि शूलं
श्वासश्च जायते ॥ ६२ ॥ पक्काशयगु-
रुत्वश्च तदा दद्यान्निरूहणम् । ती-
क्ष्णं तीक्ष्णौषधैरेव सिद्धं चाप्यनुवा-
सनम् ॥ ६३ ॥

अशुद्ध शरीरवाले मनुष्यके मलसे मिश्रित होनेके कारण स्नेह जब देहमें नहीं फैलता है तब अंगोंमे दूटन, अफारा, शूल, श्वास और पक्काशयमें भारीपन होताहै । उस समय निरूहणवस्ति अथवा तीक्ष्ण वस्ति देवे। या तीक्ष्णऔषधियोंके द्वारा सिद्ध की हुई अनुवासनवस्ति देवे ॥ ६२ ॥ ६३ ॥

भयोन्मादनषाशोवाऽजीर्णारुचिप्रमे-
हिणः । मूर्च्छाकुष्ठोदरस्थौल्यकास-
श्वासक्षयातुराः ॥ ६४ ॥ शोषभ्रम-
मदच्छर्दियुता वस्त्यसहाऽबलाः ।
नास्थाप्या नानुवास्याश्च वातरोगा-
दृते नराः ॥ ६५ ॥

भय, उन्माद, तृषा, शोष, अजीर्ण, अरुचि, प्रमेह, मूर्च्छा, कुष्ठ, उदररोग, स्थूलता, खाँसी, श्वास, क्षय, राजयक्ष्मा, भ्रम, मद और वमन इन रोगोंसे पीडित, असमर्थ और बलहीन तथा वातरोगको छोडकर अन्यदोषोंके रोगी इन सबको न अनुवासनवस्ति देनी चाहिये और न निरूहणवस्ति देनी चाहिये ॥ ६४ ॥ ६५ ॥

उदरी च प्रमेही च कुष्ठी स्थूलश्च मानवः । अवश्यं स्थापनीयाश्च नानुवास्याः कथञ्चन ॥ ६६ ॥

उदररोगी, प्रमेहरोगी, कुष्ठरोगी और स्थूलमनुष्य इनको अवश्य आस्थापनवस्ति देनी चाहिये और अनुवासन वस्ति कदापि नहीं देनी चाहिये ॥ ६६ ॥

अनेन विधिना सप्त तथाष्टौ वा न वैव वा । विधेया वस्तयो नृणामन्तरान्तर्निरूहणम् ॥ ६७ ॥

इसप्रकार मनुष्योंके सात, आठ अथवा नौ वस्ति देवे और बीचमें निरूहण वस्ति देवे ॥ ६७ ॥

विष्टब्धानिलविण्मूत्रः स्नेहहीनाऽनुवासनः । दाहक्लमपिपासार्त्तिकरश्चात्यनुवासनः ॥ ६८ ॥

स्नेह निना अनुवासन देनेसे विष्टब्धता होती है तथा अधोवायु, मल और मूत्रका अवरोध होता है। अत्यन्त अनुवासनवस्ति देनेसे दाह, क्लान्ति और तृपाकी पीडा होती है ॥ ६८ ॥

सानिलः सपुरीषश्च स्नेहः प्रत्येति यस्य वा । औषचोषौ विना शीघ्रं स सम्यगनुवासितः ॥ ६९ ॥

जिसके पवनके साथ और मलके साथ दाह और चोप आदि पीडाके विना स्नेह शीघ्र ही गुदामेंसे निकल जाय उसको अच्छे प्रकारसे अनुवासित हुआ जानना ॥ ६९ ॥

शुद्धरय दूरानुगते स्नेहे स्नेहस्य दर्शनम् । मुखे सर्वेन्द्रियाणां वाप्युपलेपाऽवसादनम् ॥ ७० ॥ स्नेहगन्धिमुखश्चापि कासश्वासादरोचकाः । अतिपीडितवत्तत्र विधिरास्थापनं तथा ॥ ७१ ॥

शुद्ध मनुष्यके शरीरमें जब स्नेह फैल जाता है तब समस्त देहमें गन्धता (विफनार्ह) धीरेधरे लगती है, मुख और समस्त इन्द्रियोंमें भिफनार्हका मालूम होना, अंगोंमें, मुखमें स्नेहरी गन्धका जाना, क्षाम, रसौंसी,

और अरुचि ये सब लक्षण होते हैं इसमें अति पीडित वस्तिके समान आस्थापन वस्तिकी विधि करे ॥ ७० ॥ ७१ ॥

गले निपीडय तत्राशु कम्पयेत्तं प्रयत्नतः । कार्यं नस्यं सुतीक्ष्णश्च तीक्ष्णं वापि विरेचनम् ॥ ७२ ॥

उम समय उसके गलेको बहुत गीब्र हाथसे दबावे और उसके शरीरको खूब यत्नपूर्वक कँपावे तथा तीक्ष्ण नस्य और तीक्ष्ण विरेचन देवे ॥ ७२ ॥

उत्क्लेशो ग्लानिरङ्गस्य सादः पर्वव्यथाऽरुचिः । निरोति स्नेहसंमिश्रं पुरीषं बहुशो मृदु ॥ ७३ ॥ ईषत्स्थौल्यं भवेत्कुक्षिगुदवंक्षणवस्तिषु । स्निग्धस्यैतानि लिङ्गानि जानीयादनुवासने ॥ ७४ ॥

देहमें उत्क्लेश, अंगोंमें ग्लानि, शरीरमें अवसन्नता, सन्धियोंमें पीडा, अरुचि, स्नेह मिले हुए बहुतसे और कोमल मलका निकलना, कोख, गुदा, वंक्षण और वस्ति इनमें किंचिन् स्थूलताका होना ये सब लक्षण अनुवासन वस्तिके द्वारा स्निग्ध हुए मनुष्यके जानने ॥ ७३ ॥ ७४ ॥

जीर्णान्नमथ सायाह्ने स्नेहात्प्रत्यागतो पुनः । लघ्वन्नं भोजयेत्कामं दीक्षामिस्तु नरो यदि ॥ ७५ ॥

भोजनके जीर्ण होने पर और सध्याके समय स्नेहके निकल जानेपर जब रोगीकी अग्नि दीपन हो जाय और उसकी इच्छा हो तब उसको हलका अन्न भोजनके लिये देवे ॥ ७५ ॥

दत्तस्तु प्रथमो वस्तिः स्नेहयेद्वस्तिवंक्षणौ । सम्यग्दत्तो द्वितीयस्तु कोष्ठस्थमनिलं जयेत् ॥ ७६ ॥ बलवर्णो च जनयेत्तृतीयस्तु प्रयोजितः । रसंचतुर्थो रक्तन्तु पञ्चमः स्नेहयेदपि ॥ ७७ ॥ षष्ठस्तु स्नेहयेन्मांसं मेदः स्निह्यति सप्तमः । अष्टमो नवमश्चा-

स्थितथा मज्जानमेव च ॥ ७८ ॥
 एवं शुक्रगतान् दोषान् द्विगुणः
 साधु साधयेत् । अष्टादशाष्टाद-
 शकान् यो वस्तीनां निषेवते ॥
 यथोक्तेन विधानेन परिहारक्रमेण
 तु ॥ ७९ ॥ सकुञ्जरबलोऽथस्य जव-
 तुल्योऽमरप्रभः । वीतपाप्मा श्रुत-
 धरः सहस्रायुर्नरो भवेत् ॥ ८० ॥

पहली दी हुई वस्तिसे मूत्राशय और वंक्षणप्रदेश
 स्निग्ध होता है । अच्छीप्रकारसे दी हुई दूसरी वस्ति-
 से कोठेकी वायु दूर होती है। तीसरी वस्तिके लगा-
 नेसे बल और वर्ण उत्पन्न होते हैं । चौथी वस्ति
 रसको स्निग्ध करती है । और पाचवी वस्ति रुधिर
 को स्निग्ध करती है । छठी वस्ति मांसको स्निग्ध
 करती है । सातवी वस्ति मेदको स्निग्ध करती है ।
 आठवी वस्ति अस्थिको स्निग्ध करती है । नवमी
 वस्ति मज्जाको स्निग्ध करती है और अठारह वार
 प्रयोग की हुई वस्ति शुक्रमन्त्रवी दोषोको दूर
 करती है। जो मनुष्य अठारह वस्तियोंको विधिपूर्वक
 सेवन करता है और यथाविधि पथ्य सेवन करता है,
 वह बलमें हाथीके समान, वेगमें अश्वके समान,
 कातिमें देवताके समान, तथा अलक्ष्मी और पापसे
 रहित होकर अनेक शान्त्रांका वारण करता हुआ एक
 सहस्रवर्ष तक जीता रहता है ॥ ७६-८० ॥

आपादतलमूर्द्धस्थान् दोषान् पक्वा-
 शयस्थितः । वीर्येण वस्तिरादत्ते
 वृषादित्यो रसानिव ॥ ८१ ॥

पक्वाशयमे प्राप्त हुई वस्ति अपने प्रभावसे पांवसे
 लेकर गिरतकके दोषोंका इस प्रकार ग्रहण करलेती
 है जिसप्रकार वृषराजिगत सूर्य्य भूमिके रसोको
 खींच लेता है ॥ ८१ ॥

पक्वाशयाह्वस्तिवीर्य्य स्वदेहमनुसा-
 र्य्यति । वृक्षमूले निषिक्तानामपाङ्ग-
 र इव द्रुमम् ॥ ८२ ॥

वस्तिका वीर्य्य पक्वाशयमेंसे सम्पूर्ण शरीरमें इस
 प्रकार फैलजाता है, जिसप्रकार वृक्षकी जड़में दिया
 हुआ जल सम्पूर्ण वृक्षमें व्याप्त होता है ॥ ८२ ॥

स चापि वस्तिः सहसा केवलः स-
 मलोऽपि वा । प्रत्येति वीर्य्यन्त्वनि-
 लैरपानार्थैः प्रणीयते ॥ ८३ ॥

वह वस्ति केवल अथवा मलके साथ सहसा वीर्य्य-
 को अपानादि वायुके द्वारा निकाल देती है ॥ ८३ ॥

मूले निषिक्तो हि यथा द्रुमः स्या-
 त्नीलच्छदः कोमलपल्लवश्च । काले
 वृहत्पुष्पफलानुबन्धस्तथा नरः स्या-
 दनुवासनेन ॥ ८४ ॥

जिसप्रकार वृक्षकी जड़को सींचनेसे वह कोमल
 पल्लव और हरे पत्तोंसे परिपूर्ण होकर कालान्तरमें
 महान् पुष्प और फलोंका देता है, उसी प्रकार अनु-
 वासनवस्ति देनेसे मनुष्य हृष्ट पुष्ट शरीरवाला बलिष्ठ
 होकर सुन्दर सतानको उत्पन्न करता है ॥ ८४ ॥

स्तब्धाश्च ये संकुचिताश्च केचिद्ये
 पङ्गवो येऽपि च गात्रभग्नाः । येषाश्च
 शाखास्तु चरन्ति वाताः शस्तो वि-
 शेषेण हि तेषु वस्तिः ॥ ८५ ॥

जिनका शरीर वायुसे जकड़ गया हो, जिनके अंग
 सकुच गये हों, जो पंगु ह, जिनका डेह भग्न हो गया
 है और जिनके हाथ पाँवमें वायु विचरण करती है,
 उनके लिये वस्तिकर्म विशेष करके हितकारी है ॥ ८५ ॥

आग्लापिते प्राग्रथिते पुरीषे शूले
 च भक्तानभिनन्दने च । एवं प्रकारा-
 श्च भवन्ति कुक्षौ य आमयास्तेषु च
 वस्तिरिष्टः ॥ ८६ ॥

अगलग्लानि और अफारे आदिमें, मलके विवन्धमें,
 शूलमें, भोजनमें, अरुचि होनेमें और इसीप्रकारके
 जो कुक्षिगत रोग ह, उन सर्वोंमें भी यह वस्तिकर्म
 हितकारी है ॥ ८६ ॥

याश्च स्त्रियो वातकृतोपसर्गा गर्भत्र
 विन्दन्ति नृभिः समेताः । क्षीणेन्द्रि-
 या ये च नराः कृशाश्च वस्तिः प्रशस्तः
 परभो हि तेषु ॥ ८७ ॥

जो स्त्रियां वायुके विकारसे पुरुषके साथ संगम होने पर भी गर्भको धारण नहीं करती है तथा जिन मनुष्योंकी इन्द्रियें क्षाण हैं और जो मनुष्य कृग हैं उनके लिये यह वस्ति अतीव हितकारी है ॥ ८७ ॥

उष्णाभिभूतेषु तथातिशीतान् शी-
ताभिभूतेषु तथा सुखोष्णान् । तत्प्र-
त्यनीकैऽथ स युक्तयुक्तया सर्वत्र व-
स्तीन् प्रविभज्य द्यात् ॥ ८८ ॥

उष्णतसे पीडित मनुष्योंको अत्यंत शीतल और शीतमे पीडित रोगियोंको सुखोष्ण इस प्रकार सर्वत्र पडिाके विपरीत औपधियोंके द्वारा युक्तिपूर्वक क्रमसे विभक्त करके वस्ति देवे ॥ ८८ ॥

न बृंहणीयान्विदधीत वस्तीन् विशो-
धनीयेषु गदेषु वैद्यः । कुष्ठप्रमेहादि-
षु मेदूंगेषु नरेषु ये चापि विशोध-
नीयाः ॥ ८९ ॥

जो रोग विगोधनेक योग्य हो वद्य उनमे बृंहणकी वस्ति नहीं देवे तथा अन्यान्य जो शोथनके योग्य कुष्ठ, प्रमेह और लिंगगत रोग है उनमे वस्ति नहीं देवे ॥ ८९ ॥

क्षीणक्षतानामविशोक्षितानां न शो-
षिणां नो कृशर्दुबलानाम् । न मू-
र्च्छितानां विदधीत वस्तिं येषाञ्च दो-
षाः पुनरूर्ध्वगाः स्युः ॥ ९० ॥

क्षीण, क्षत, अशुद्ध शरीरवाले, जोपरोगी, कृग, दुर्बल, मूर्च्छित और जिनके दोषे उर्ध्वगत है उनको वस्ति देनी चाहीये ॥ ९० ॥

शाखागता कोष्ठगताश्च रोगा ज-
मोर्ध्वसर्वावयवार्द्धगाश्च । ये सन्ति
दोषा न तु कश्चिदन्धो वायोः परं
जन्मानि हेतुरस्ति ॥ ९१ ॥

शाखागत और कोष्ठगत जो रोग है तथा मर्म-
गत, उर्ध्वगत, सर्वांग और अर्द्धांगगत जो रोग हैं उनके उत्पन्न करनेके लिये वायुके अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है ॥ ९१ ॥

विणमूत्रपित्तादिमलाशयानां वाता-
श्चः सौख्यकरश्च यस्मात् । तस्मान्न

वातैकसमाश्रयाणां वस्तिं विना भे-
षजमन्यदस्ति ॥

विष्ण, मूत्र और पित्तादि तथा मलाशयोकी वायु को रोकनेवाली और सुखकारक होनेसे एवं वायुके एक आधारभूत होनेसे वस्तिके मिथा अन्य औपधि नहीं है ॥

तरनाञ्चिकित्सार्धमिति ब्रुवन्ति स-
र्वा चिकित्सामपि वस्तिमेके ॥ ९२ ॥

इसकारण कितनेही आचार्य्य केवल एक वस्तिको अर्धचिकित्सा और कितनेही वैद्य सर्वाचिकित्सा भी कहते हैं ॥ ९२ ॥

गुडूचीतैल ।

गुडूच्येरण्डपूतीकभाङ्गीवृषकरौहि-
षम् । शतावरीं सहचरं काकनासां
पलोन्मिताम् ॥ ९३ ॥ यवमाषातसी-
कोलकुलित्थान् प्रसृतोन्मितान् ।
चतुद्रोणेऽम्भसः पक्त्वा द्रोणशेषेण ते-
न च ॥ ९४ ॥ पचेत्तैलाढकं पेप्यैर्जीव-
नीयैः पलोन्मितैः । अनुवासनमेताद्वि
सर्ववातविकारनुत् ॥ ९५ ॥

गिलोय, अंडकी जड, दुर्गन्धकरंज, भारगी, अडूसा, रोहिपतृण, शतावर, पियावांसा और कौआठोडी ये प्रत्येक औपधि चार चार तोले, तथा जौ, उडद, अलसी, वेर और कुलथी ये प्रत्येक आठ ९ तोला परिमाण लेकर सबको एकत्र करके चार द्रोण जलमे पकावे । जत्र पकते पकते एक द्रोण जल शेष रहजाय तब उतारकर छान लेवे फिर उसमें एक आढक परिमाण तिलका तेल और जीवनीयगणकी औपधियाका कलक चार २ तोले परिमाण डालकर विविपूर्वक तेलको पकावे । इस तेलके द्वारा अनुवास-
नवस्ति देनेसे सबप्रकारके वातविकार नष्ट होते हैं ।
॥ ९३-९५ ॥

जीवन्त्याद्ययमक ।

जीवन्तीं मदनं भेदां श्रावणीं मधुकं
बलाम् । जीवकर्षभर्को कृष्णां का-
कनासां शतावरीम् ॥ ९६ ॥ स्वगु-
तां क्षीरकाकोलीं कर्कटाख्यां शटीं
वचाम् । पिष्ट्वा तैलं घृतं क्षीरे साध-

येतु चतुर्गुणे ॥ ९७ ॥ बृंहणं वातपि-
त्तन्नं बलशुक्राग्निवर्द्धनम् । मूत्ररेतो-
रजोदोषान् हरेत्तदनुवासनात् ॥ ९८ ॥

जीवती, मैतफल, मेदा, गोरखमुडी, मुलैठी, खिरैटी, जीवक, ऋषभक, पीपल, कौआठोडी, गता-
वर, कौष्ठ, क्षीरकाकोली, काकडाशिगी, कचूर और
वच इन सबको समान भाग लेकर कल्क बनाकर
उसके साथ तेल और घृतको चौगुने दूधमे पकावे ।
इस तेल अथवा घृतके द्वारा अनुवासनवस्ति देनेसे—
बृंहण, वातपित्तका नाशक, बल, वीर्य्य और जठराग्नि-
की वृद्धि होती है । तथा यह वस्ति मूत्र, शुक्र और
रजके विकारोंको दूर करती है ॥ ९६-९८ ॥

अथ निरूहणविधि ।

निरूहवस्तिर्बहुधा भिद्यते कारणान्तरैः । तैरेव तस्य नामानि कृतानि मुनिपुङ्गवैः ॥ ९९ ॥

पृथक् २ औषधियोंके मिलानेसे निरूहवस्तिके अनेक भेद होते हैं । और उन भेदोंके होनेसे उसी उसी वस्तिके अनुसार महात्मा मुनियोंने उनके नाम कहे हैं ॥ ९९ ॥

वातव्याधावुदावर्त्ते वातासृग्विषम-
ज्वरे । मूत्रकृच्छ्रोदरानाहमूत्रदोषा-
श्मरीषु च ॥ १०० ॥ वृद्धचसृग्दरमन्दा-
ग्निप्रमेहेषु निरूहणम् । शूलेऽम्लपित्ते
हृद्रोगे योजयेद्विधिवद्बुधः ॥ १०१ ॥

वातव्याधि, उदावर्त्त, वातरक्त, विषमज्वर, मूत्र-
कृच्छ्र, उदररोग, आनाह, मूत्रविकार, अश्मरी, वृद्धि,
प्रदररोग, मदाग्नि, प्रमेह, शूल, अम्लपित्त और
हृदयरोग इन सबमे बुद्धिमान् वैद्य विधिपूर्वक निरू-
हणवस्तिको प्रयोग करे ॥ १०० ॥ १०१ ॥

मधुस्नेहनकल्काख्याः कषाया वा
मताः क्रमात् । त्रीणि षड् द्वादश
त्रीणि पलान्यनिलरोगिषु ॥ १०२ ॥
पित्ते चत्वारि चत्वारि द्वे द्वे चैव च-
तुष्टयम् । षट्त्रीणि द्वादशत्रीणि कफे
चापि निरूहणम् ॥ १०३ ॥

वातके रोगोंमें मधु, स्नेह, बलक और काथ ये क्रमसे
तीन, छः, बारह और तीन पल मिलावे अर्थात् वात-
रोगमें निरूहणवस्ती देनी हों तो उसमें शहद तीनपल,
स्नेह छः पल, कल्क बारह पल और काथ तीनपल
मिलावे । पित्तके रोगोमे शहद चार पल, स्नेह चार
पल, कल्क दो पल और काथ दोपल मिलावे । तथा
कफके रोगोमे शहद छ पल, स्नेह तीन पल, कल्क
बारह पल और काथ तीन पल मिलावे १०२ ॥ १०३

नात्युच्छ्रितं नाप्यतिनीचपादं सपा-
दपीठं शयनं प्रशस्तम् । प्रधानमृद्धा-
स्तरणोपपन्नं प्राक् शीर्षकं शुक्लप-
टोत्तरीयम् ॥ १०४ ॥

जिसके न अत्यंत ऊंचे और न अत्यंत नीचे पा-
ये हो तथा पीठ और पाये समान एवं उत्तम हो ऐ-
सी सुखकारक शय्यापर बहुत कोमल और गाढे वस्त्र
(रेशमीन, गलीचा, रत्न, कम्बल, तोपकप्रभृति)
विछाकर उसके उपर रोगीको पूर्वकी ओर मुंह करके
शयन करादेवे और हलका लफेद वस्त्र ऊपरमे उढा
देवे ॥ १०४ ॥

प्राक्षिप्य वस्तौ स्थितं खजेन सुबद्ध-
पुच्छानननिर्व्यलीकम् । अंगुष्ठमध्येन
मुखं पिधाय गृहीत वैद्यो निजसव्य-
हस्ते ॥ १०५ ॥

वस्तीके डबकां करछीसे अच्छेप्रकार मथकर उसको
वस्तिमें डालकर और वस्तीके मुखके ऊपरके बंधन-
को खोलकर तथा वस्तिके मुखको अंगुठेसे बुद्धिमान
वैद्य उसको अपने बाये हाथमे ग्रहण करे ॥ १०५ ॥

तैलाक्तगात्रं कृतमूत्रविट्कं नातिशु-
धार्त्तं शयने मनुष्यम् । समे सुदेशे
नतशीर्षकञ्च नात्युच्छ्रितो नास्तरणो-
पपन्ने ॥ १०६ ॥ सव्येन पार्श्वेन सुखं शयानं
कृत्वर्जुदेहञ्च भुजोपपन्नमूनिष्कुंच्य
सव्येतरमस्य सक्थि वामं प्रसार्य्य प्र-
णयेच्च वस्तिम् ॥ १०७ ॥ स्निग्धे गुदे
नेत्रचतुर्थभागं स्निग्धं शनै रक्षितपृष्ठ-
वंशम् । अकम्पनावेपनलाघवादीन्

पाप्योर्गुणांश्चापि हि दर्शयद्भिः १०८ ॥
प्रपीडय चैकग्रहणेन दत्ते नेत्रं शनैरेव
ततोऽपकर्षेत । तिर्यक् प्रणीतं न गता
च धारा गुदं प्रणश्येच्चलिते च नेत्रे १०९

पश्चान् जिसने अपने शरीरपर तेल मर्दन किया हो, जो मल और मूत्रकी वाधासे निवृत्त होगया हो और जो अत्यन्त क्षुधामे पीडित न हो ऐसे रोगीको पूर्वोक्त समान ग्रन्थ्यापर ग्रथन करा देवे । उस ग्रन्थ्या पर ऐसा विद्यौना विद्यावे कि जो न अत्यन्त ऊँचा हो और न अत्यन्त नीचा हो, किन्तु सिराहनेकी ओर कुछ नीचा होना चाहिये। ऐसे विद्यौनेपर रोगीको बाई करवटसे मुलावे और उसके शरीरको सीधा करदेवे तथा उसकी भुजाओंको फैला देवे फिर उसकी दहिनी टाँगको सकोडकर और बायीं टाँगको फैलाकर वस्ति लगावे । उसकी गुदाको स्निग्ध करके उसमें स्निग्ध वस्तिनी नलीके चौथा भागको रखकर पीठके वासक ऊपर जर्न जर्न हाथ फेरता हुआ और हाथोंको न कपाता हुआ न डिगमिगाता हुआ और हलके हाथोंवाला ऐसा वच्च अपने गुणोंको दिखता हुआ एक हाथमे वस्तिको पीडित करके दूसरे हाथसे वीरेसे वस्ति देवे । वस्तिक टडे होजानेपर अच्छेप्रकारसे वारा नहीं जाती और नेत्रके चलायमान होनेपर गुदामें ब्रण हांजाता ह ॥ १०६-१०९ ॥

दत्तः शनैर्नाशनमेति वस्तिः कण्ठं
प्रधावत्यतिपीडितस्तु । शीतस्तु वि-
ष्टभ्य करोति दाहं मूर्च्छांश्च तापन्त्व-
तिमात्रमुष्णः ॥ ११० ॥

जर्न जर्न दीहई वस्ति आग्रयमें नहीं जाती और अत्यन्त शीततासे लगाईहुई वस्ति कठमेको आजानी है अत्यन्त शीतलवस्ति विष्टब्धता करती है और अत्यन्त उष्ण वस्ति दाह, मूर्च्छा और सन्तापको उत्पन्न करती है ॥ ११० ॥

स्निग्धोऽग्निनाशं पवनं विरुक्षस्तथा-
ल्पमात्रोऽलवणस्त्वयोगम् । करोति
मात्राभ्यधिकोऽतिरोगं क्षामन्तु सां-
द्रः सुचिरेण चैति ॥ १११ ॥

स्निग्धवस्ति अग्निको नष्ट करनी है । रुक्षवस्ति वायुको बढ़ाती है, अल्पमात्रावाली और लवणरहित

वस्ति असह्य होजाती है तथा घृणाको करती है। अधिक-मात्राकी दी हुई वस्ति अत्यन्त घोर रोगको उत्पन्न करती है और दुर्बल मनुष्यको दी हुई गाढी वस्ति बहुत समयमें प्राप्त होती है ॥ १११ ॥

दाहातिसारौ लवणोऽतिकुर्यात्त-
स्मात्सुयुक्त्या सममेव दद्यात् । वि-
ड्वातवेगश्च विधार्य दत्ते निःकृष्य
मुक्ते प्रणयेच्च शेषम् ॥ ११२ ॥

वस्तिमें लवण अधिक होनेसे वह दाह और अति-सारको उत्पन्न करती है । इसकारण युक्ति पूर्वक विचार करके समान भाग लवण मिलावे । जो वस्तिके लगाते समय मल और वायुका वेग हो तो वस्तिको निकाल कर उनको वेगोंको त्यागकर पश्चात् शेष रहे द्रवकी फिर वस्ति लगावे ॥ ११२ ॥

अन्यच्च ।

अनुवासितमभ्यक्तं स्विन्नं स्नेहैर्निरू-
हयेत् । अनुवास्य स्निग्धतनुं तृती-
येऽह्नि निरूहयेत् ॥ मध्याह्ने किञ्चि-
दावृत्ते निरूहन्तु समाचरेत् ॥ ११३ ॥

अनुवासनवस्ति देनेके पश्चात् जिसने अपने शरीरको तेल मलकर और स्वेदित करके शुद्ध कर-लिया है ऐसे मनुष्यको तीसरे दिन लहके द्वारा निरूहण वस्ति देवे । दोपहरके समय कुछ वस्त्र उढ़ा कर निरूहणवस्ति देनी चाहिए ॥ ११३ ॥

सव्यं प्रसारयेत् सक्थि दक्षिणश्चो-
पकुञ्चयेत् । मध्याह्ने सुमना जर्णि
निरत्रो वाग्यतो नरः ॥ ११४ ॥ व-
स्तिं सव्ये कर कृत्वा दक्षिणेनाऽव-
पीडयेत् । एकेनैवावपीडेन न द्रुतं न-
विलम्बितम् ॥ ११५ ॥

बाई साथल फैलावे और दहिनी सिकोडे । फिर दो पहरके समय भोजनके जीर्ण होनेपर जब वह प्रसन्नचित्त होजाय और कुछ कुछ क्षुधातुर हो तब चुपचाप मनुष्य वस्तिका बाँये हाथमे लेकर दाहिने हाथसे पीडित करे । और इसप्रकार पीडित करे कि, जिससे एकही वारके पीडन करनेसे स्नेह शरीरमें प्रविष्ट होजाय ।

पीडित करनेमें न अत्यन्त शीघ्रता करनी चाहिये और न अत्यंत विलम्ब करना चाहिये॥११४॥११५

ततो नेत्रमपनीय त्रिंशन्मात्राः
पीडनकालादवेक्ष्योत्तिष्ठेत्यातुरं ब्रू-
यात् । आतुरमुपवेशयेदुत्कटकं ब-
स्तेरागमनायेति । निरूहप्रत्यागमन-
कालो सुहूर्तो भवतीति पूर्वाचार्यैः
कथितम् ।

फिर वस्तिको निकाल कर पीडन कालसे तीस मात्रातक उपेक्षा करके रोगीसे उठनेके लिये कहे । पश्चात् वस्तिके निकालनेके लिये रोगीको ऊर्ध्वजानु आसनसे बैठाने । निरूहणवस्तिके द्वारा दी हुई औषधि एक मुहूर्त्तमें फिर बाहर निकल जाती है, ऐसा पूर्वाचार्योंने कहा है ।

यावत्प्रत्येति हस्ताग्रं दक्षिणं जानुम-
ण्डलम् । निमेषोन्मेषकालश्च सा
मात्रा परिकीर्तिता ॥ ११६ ॥

जितने समयमें हाथका अग्रभाग दाहिनी जघा-
को स्पर्श करता है, उतने समयको निमेष और उन्मेष
एवं मात्रा कहते हैं ॥ ११६ ॥

अनेन विधिना दद्याद्द्वस्तिं वस्तिवि-
शारदः।द्वितीयं वा तृतीयं वा चतुर्थं
वा यथार्हतः ॥ ११७ ॥

इसप्रकार वस्तिकर्मको जाननेवाला वैद्य यथा
दोपानुसार दो या तीन अथवा चार वस्ति देवे॥११७

सम्यङ्निरूढालिङ्गे तु प्राप्ते वस्तिं नि-
वारयेत् । अपि हीनं क्रमं, कुर्व्यान्नैव
कुर्व्यादतिक्रमम् । विशेषात् सुकुमा-
राणां हीन एव क्रमो मतः ॥ ११८ ॥

जब अच्छे प्रकारसे निरूहणके लक्षण होजाय
व वस्ति नहीं लगावे । थोड़ी ही वस्ति लगाना
उत्तम है, अधिक वस्ति लगाना उत्तम नहीं है और
विशेष करके सुकुमार मनुष्योंके तो थोड़ी ही वस्ति
लगानी चाहिये ॥ ११८ ॥

मृदुर्वस्तिः प्रयोक्तव्या विशेषाद्दाल-
वृद्धयोः । तयोस्तीक्ष्णः प्रयुक्तस्तु ध्रुवं
हन्याद्वलौजसी ॥ ११९ ॥

विशेषकरके बालक और वृद्धोंके मृदुवस्ति प्रयोग
करनी चाहिये । यदि बालक और वृद्ध मनुष्योंके
तीक्ष्ण वस्ति दीजाय तो वह उनके बल और ओजको
अवश्य नष्ट करती है ॥ ११९ ॥

सस्नेह एकः पवने निरूहो द्वौ स्वादु-
शीतो पयसा च पित्ते । त्रयः समूत्राः
कटुकोष्णरूक्षाः कफे निरूहा न परे
विधेयाः ॥ १२० ॥

स्नेहयुक्त एक निरूह वस्ति वातमें, दुधयुक्त मधुर
और शीतल ऐसी दो निरूह वस्ति पित्तमें, गोमूत्र-
युक्त, कटु, रूक्ष और उष्ण ऐसी तीन निरूह कफके
रोगोंमें लगावे । इससे अधिक और निरूह नहीं
लगावे ॥ १२० ॥

एकोऽपकर्षत्यनिलं स्वमार्गात्पिनं द्वि-
तीयस्तु कफं तृतीयः । प्रत्यागते को-
ष्णजलावसिक्तः शाल्यत्रमद्यात्तनुना
रसेन ॥ १२१ ॥

एक वस्ति अपने मार्गसे वायुको अपकर्षण करती
है । दूसरी वस्ति पित्तको अपने मार्गसे खींचती है
और तीसरी वस्ति कफको खींचती है । जब वस्ति
बाहर निकल आवे तब उष्णजलसे शरीरको सींचे
और पतल रसोके साथ शालिचावलोका भात
खाय ॥ १२१ ॥

जीर्णे च सायं लघु चाल्पमात्रं भुक्तवा-
नुवास्यः परिवृंहणार्थम् । निरूहणा-
र्द्धागमनेन तैलेनाम्लानिलघ्नौषधसा-
धितेन ॥१२२॥ दत्त्वा स्फिजौ पाणि-
तलेन तालं स्नेहस्य शीघ्रागमनाय
वैद्यः ॥१२३ ॥

जब जीर्ण होजाय तब संन्याके समय थोड़ासा
हलका भोजन करे और भोजन करनेके पश्चात् पुष्टिके
लिये अनुवासन करे । आधी निरूहके बाहर आनेपर
वैद्य स्नेहके शीघ्र निकलनेके लिए अम्ल और वात-
नाशक औषधियोंके द्वारा सिद्ध किये हुए तेलको
हथेलीमें लेकर रोगीके कूलोंपर मारे॥१२२॥१२३॥

अल्पाल्पवेगी विद्वातहीनो हीनानि-
रूहणः । सूच्छीशूलकफत्रयो महा-
वेगोऽतिशब्दितः ॥ १२४ ॥

हीननिरूहणमें मल और वायुका अल्प अल्प वेग
होता है और अविक निरूहणमें सूच्छी, शूल और
कफादिरोग एवं वायु और मलका महावेग होता
ह ॥ १२४ ॥

यस्य मूत्रं पुरीषश्च कफो वायुश्च ग-
च्छति । क्रमेण लघुता चैव सुनिरूढः
स मानवः ॥ १२५ ॥

जिसके क्रमसे प्रथम मूत्र फिर मल, कफ और
वायु निकलता है पश्चात् शरीरमें हलकापन होता है
उसको अच्छे प्रकारसे निरूहित हुआ जानना १२५

सुनिरूढं ततो जन्तुं स्नानभुक्तिसौ-
दनम् । यथोक्तेन विधानेन योजयेत्
स्नेहवस्तिना ॥ १२६ ॥

जब अच्छे प्रकारसे निरूहण हो जाय तब उस
मनुष्यको स्नान कराकर और मांसरसके साथ भातका
भोजन कराकर यथोक्त विधिसे स्नेहवस्ति प्रयोग
करे ॥ १२६ ॥

तदहस्तस्य पवनाद्भयं बलवदिष्य-
ते । रसौदनोऽनुशस्तश्च तदहश्चानु-
वासनम् ॥ १२७ ॥

जिस दिन स्नेहवस्ति दीजाती है, उस दिन रोगीको
वायुका विशेष भय रहता है, इसकारण उस दिन
मांसरसके साथ भोजनके लिये भात देवे और फिर
उसी दिन अनुवासनवस्ति देवे ॥ १२७ ॥

सम्यङ्निरूढं तलाक्तं जलेनोष्णेन
सेचितम् । अल्पस्नेहं जाङ्गलेन रसेना-
र्द्धन्तु भोजितम् ॥ १२८ ॥

अच्छे प्रकारसे निरूहणशक्ति दिये हुए मनुष्यके
शरीरको तेलसे मलकर गरमजलसे सेचन करे फिर
कुछ थोडासा स्नेह मिलाकर जागलदेशके जीवोके
मांसरसके साथ आधा भोजन करावे ॥ १२८ ॥

योजयेदल्पमात्रेण तत्क्षणं स्नेहवस्ति-
ना । पश्चादग्निबलं ज्ञात्वा पवनस्य

विचेष्टितम् ॥ अन्नोपस्तम्भिते कोष्ठे
स्नेहवस्तिर्विधीयते ॥ १२९ ॥

फिर तत्काल अल्पमात्राकी स्नेहवस्ति लगावे ।
और अग्निका बलावल विचारकर तथा वायुकी चेष्टा-
को समझकर अन्नसे उपस्तम्भित हुए कोठेमें स्नेह-
वस्ति लगावे ॥ १२९ ॥

द्व्यहे द्व्यहे चाह्वयथ पञ्चमे च दद्या-
त्रिरूहाद्गुवासनञ्च ॥ १३० ॥

दूसरे तीसरे अथवा पाचवें दिनमें निरूहणवस्तिसे
अनुवासनवस्ति देवे ॥ १३० ॥

विविक्तता मनस्तुष्टिः स्निग्धता व्या-
धिनिग्रहः । आस्थापने स्नेहवस्ती
सम्यग्दत्ते तु लक्षणम् ॥ १३१ ॥

अच्छे प्रकारसे आस्थापन और स्नेहन वस्ति देनेपर
और वस्तिकी आपधिके निकलजानेपर अंगोंमें वि-
विक्तता, मनमें प्रसन्नता, शरीरमें स्निग्धता और रोगों-
का नाश होता है ॥ १३१ ॥

अनायान्तं मुहूर्तान्तं निरूहं शोध-
नैर्हेत । निरूहेरेव मतिमान् क्षार-
मूत्राम्लसंयुतः ॥ १३२ ॥

जो एक मुहूर्तमें निरूह नहीं निकले तो शोधन
आपधियोंके द्वारा निकाले । बुद्धिमान् वैद्य जवाखार,
गोमूत्र और काँजी इनको एकत्र मिलाकर निरूह-
वस्तिके द्वारा प्रयोग करे ॥ १३२ ॥

विशुणानिलविष्टब्धं चिरं तिष्ठेत्रि-
रूहणम् । शूलारतिज्वराटोपान्मर-
णञ्च प्रपद्यते ॥ १३३ ॥

जब निरूहण विगुणवायुसे विष्टब्ध होकर
बहुत कालतक ठहरता है तब शूल, व्याकुलता,
ज्वर, पेटमें गुडगुडाहट और मृत्युतक भी होजाती
है ॥ १३३ ॥

न तु भुक्तवते देयमास्थापनमिति
स्थितिः । आमं तदुद्धरेद्भुक्तं छर्दि
वा जनयेद् भृशम् ॥ १३४ ॥ को-
पयेत्सर्वदोषान्वा तस्माद्द्यादभो-
जिने ॥ १३५ ॥

भोजन करनेपर कदापि आस्थापनवस्ति नहीं देवे क्योंकि भोजनके पश्चात् वस्ति देनेपर वह अपकहीं निकलजाती है अथवा वमनको उत्पन्न करती है तथा सम्पूर्ण दोषोंको कुपित करती है । इसकारण बिना भोजन किये ही आस्थापनवस्ति देनी चाहिये ॥ १३४ ॥ १३५ ॥

आवस्थिकं क्रमं चापि मत्वा कार्य्यं निरूहणम् । मलेऽपकृष्टे दोषाणां बलवत्त्वं न विद्यते ॥ १३६ ॥

अवस्थाके क्रमको देखकर निरूहणवस्ति देवे, क्योंकि मलेके निकलजानेपर फिर दोषोंमें बल नहीं रहता है ॥ १३६ ॥

अतिप्रपीडितो वस्तिः प्रक्रम्यामाशयं गतः । वातेरितो नासिकाया मुखतो वा प्रपद्यते ॥ १३७ ॥

अत्यन्त पीडित की हुई वस्ति आमाशयमें चली जाती है और फिर वायुसे प्रेरित होकर नासिका और मुखके द्वारा निकलती है ॥ १३७ ॥

छर्दिहल्लासमूर्च्छादीन् प्रकुर्यादाहमेव च । तत्र तूर्णं गलापीडं प्रकुर्याद्वधूननम् ॥ १३८ ॥

तथा वमन, हल्लास (उबकाई), मूर्च्छा और दाहादि विकारोंको उत्पन्न करती है । उस समय शीघ्रही गलेको दबावे और शरीरको खूब हिलावे ॥ १३८ ॥

शिरः कायविरैकौ च तीक्ष्णैः सेकांश्च शीतलान् ।

तीक्ष्ण शिरोविरैचन और तीक्ष्ण कायविरैचन देवे और जीतल औषधियोंके द्वारा परिसंचन करे ॥

अथ द्वादशप्रसृत ।

दत्त्वादौ सैन्धवस्याक्षं मधुनः प्रसृतद्वयम् । विनिर्मथ्य ततो दद्यात् स्नेहस्य प्रसृतत्रयम् ॥ १३९ ॥ एकीभूते ततः स्नेहे कल्कस्य प्रसृतं क्षिपेत् । संमूर्च्छिते कषायन्तु चतुःप्रसृतसम्मितम् ॥ १४० ॥ वितरेच्च त-

था वाल्पमन्ते द्विप्रसृतोन्मितम् । एवं प्रकल्पितो वस्तिर्द्वादशप्रसृतिर्भवेत् ॥ १४१ ॥

अथ निरूहकी मात्रा कहते हैं । प्रथम एक तोले सैन्धेनमरुको सोलह तोले शहदमें डालकर खूब मथे, फिर उसमें चौबीस तोले स्नेह डालकर सबको अच्छे प्रकारसे मर्दन करके एकमएक करलेवे । फिर उस स्नेहमें आठ तोले कल्क मिलादेवे उसको अच्छे प्रकारसे मिलजानेपर उसमें ३२ तोले काथ डालदेवे । पश्चात् १६ तोले योग्यचूर्ण डालकर अच्छे प्रकारसे घोटलेवे । इसप्रकार कल्पित कीहुई वस्तिको द्वादश प्रसृत कहते हैं ॥ १३९ ॥ १४० ॥ १४१ ॥

धारयेदौषधं पाणिं न तिष्ठत्यवलिप्य च । न करोति च सीमन्तं सुनिरूहः प्रयोजितः ॥ १४२ ॥

जो औषध हाथमें धारण करनेसे हाथमें नहीं ठहरे, न चिपके तथा न सीमन्तको करे ऐसी औषधिके द्वारा सुन्दर निरूह हाता है ॥ १४२ ॥

वातघ्नौषधनिष्काथाः सैन्धवत्रिवृतायुताः । साम्लाः सुखोष्णा देयाः स्युर्वस्तयः कुपितेऽनिले ॥ १४३ ॥

कुपित हुई वायुमें वातनागकऔषधियोंका काथ बनाकर उसमें सधानमरु और निसांत तथा काँजी ये सब यथोचितमात्राके अनुसार डालकर सुखोष्णवस्ति लगावे ॥ १४३ ॥

न्यग्रोधादिगणकाथाः काकोल्यादिसमायुताः । विधेया वस्तयः पित्ते सक्षौद्रवृत्तशर्कराः ॥ १४४ ॥

न्यग्रोधादि गणकी औषधियोंके काथमें काकोल्यादि गणकी औषधियोंका कल्क तथा शहद, धी और मिश्री डालकर इन सबके द्वारा पित्तके रोगोंमें वस्ति देवे ॥ १४४ ॥

न्यग्रोधादिगणकाथाः पिप्पल्यादिसमायुताः । सक्षौद्रमूत्रा देयाः स्युर्वस्तयः कुपिते कफे ॥ १४५ ॥

कफके रोगोंमें न्यग्रोधादिगणकी औषधियोंके काथमें पिप्पल्यादि गणकी औषधियोंका फलक, शहद और गोमूत्र डालकर वस्ति लगावे ॥ १४५ ॥

**शर्करेधुरसक्षौद्रघृतयुक्ताः सुशीतलाः।
क्षीरिवृक्षकषायाट्या वस्तयः शो-
णिते हिताः ॥ १४६ ॥**

शर्कराके विकारोंमें मिश्री, ईखका रस, शहद और घृत इनको क्षीरिवृक्षोंके काथमें डालकर जीतल करके वस्तिके द्वारा प्रयोग करना हितकर है ॥ १४६ ॥

**प्रियंग्वादिगणकाथा अम्बष्ठादिस-
मायुताः । सक्षौद्राः सघृता वापि
वस्तयो ग्राहिणो हिताः ॥ १४७ ॥**

प्रियंग्वादि गणकी औषधियोंके काथमें अम्बष्ठादि गणकी औषधियोंका कलक, शहद और घी डालकर वस्ति लगावे इसको ग्राहिणीवस्ति कहते हैं। यह अतिसार और संप्रघर्णीरोगमें हितकारी है ॥ १४७ ॥

पिच्छिलवस्ति ।

**विदार्यैरावतीशेलुशालमलीधन्वनां-
कुराः । क्षीरसिद्धाः क्षौद्रयुक्ता नाम्ना
पिच्छिलवस्तयः ॥ १४८ ॥**

विदारिकद, वटपत्री, लिसोडें, सेमल और धामिनके अकुर इनको दूधमें पकाकर और शहदमें मिला कर वस्तिमें प्रयोग करे। इसको पिच्छिलवस्ति कहते हैं ॥ १४८ ॥

**वाराहमाहिषोरश्रवैडालैण्यकौक्कुट-
म् । सद्यस्कमसृगाजम्बा देयं पिच्छि-
लवस्तिषु ॥ १४९ ॥ मात्रा पिच्छि-
लवस्तीनां पलैर्द्वादशभिर्मता ॥ १५० ॥**

मूअर, भैसा, भेडा, विलाव, हिरन, मुरगा और वकरा इनका तत्कालका निकाला हुआ रुधिर पिच्छिलवस्तिमें डालना चाहिये। पिच्छिलवस्तिकी वारहपलकी मात्रा जाननी ॥ १४९ ॥ १५० ॥

**दद्यादुत्क्लेशनं पूर्वं मध्यं दोषहरं
पुनः । पश्चात्संशमनीयञ्च वस्ति द-
द्याद्विचक्षणः ॥ १५१ ॥**

बुद्धिमान् वैद्य प्रथम उत्क्लेशनवस्ति देवे, फिर दोषहावस्ति देवे और फिर संशमनीय वस्ति देवे ॥ १५१ ॥

उत्क्लेशनवस्ति ।

**एरण्डमूलं मधुकं पिप्पलीसैन्धवं व-
चा । हपुषाफलकलकश्च वस्तिरुत्क्ले-
शनः स्मृतः ॥ १५२ ॥**

अंडकी जड़, मुलैठी, पीपल, सैधानमक, वच और हाऊवेरका फलक डालकर जो वस्ति दी जाती है। उसको उत्क्लेशनवस्ति कहते हैं ॥ १५२ ॥

दोषहरवस्ति ।

**शताह्वा मधुकं बिल्वं कौटजं फलमेव
च । सकाञ्जिकः सगोमूत्रो वस्तिदो-
षहरः स्मृतः ॥ १५३ ॥**

सौंफ, मुलैठी, बेलगिरी और इन्द्रजौ इनका कलक बनाकर उसको काजी और गोमूत्रमें मिलाकर वस्ति देवे। इसको दोषहरवस्ति कहते हैं ॥ १५३ ॥

शमनवस्ति ।

**प्रियंगुर्मधुकं मुस्तं तथैव च रसाञ्ज-
नम् । सक्षीरः शस्यते वस्तिदोषाणां
शमनः स्मृतः ॥ १५४ ॥**

फूलप्रियंगु, मुलैठी, नागरमोथा और रसौत इनका कलक बनाकर दूधमें डालकर वस्ति लगावे। यह वस्ति दोषोंका शमन करती है, इसकारण इसको संशमनवस्ति कहते हैं ॥ १५४ ॥

शोधनवस्ति ।

**शोधनद्रव्यनिष्काथास्तत्कलकैः स्ने-
हसैन्धवैः । युक्त्या खजेन मथिता व-
स्तयः शोधनाः स्मृताः ॥ १५५ ॥**

शोधन औषधियोंके काथमें शोधन औषधियोंका कलक, स्नेह और सैधानमक डालकर उसको युक्तिपूर्वक करलीसे मथकर वस्तिमें प्रयोग करे। इसको शोधनवस्ति कहते हैं ॥ १५५ ॥

लेखनवस्ति ।

**त्रिफलाकाथगोमूत्रैः क्षौद्रक्षारसमा-
युताः । उषकादिप्रतीवापा वस्तयो
लेखनाः स्मृताः ॥ १५६ ॥**

त्रिफलेका काथ, गोमूत्र, शहद और जवाखार इन सबको एकत्र मिलाकर और उसमें ऊषकादि औषधियोंके कल्कको डालकर वस्ति लगावे। इसको लेखनवस्ति कहते हैं ॥ १५६ ॥

बृंहणवस्ति ।

बृंहणद्रव्यनिष्काथाः कल्कैर्मधुरकै-
र्युताः । सर्पिर्मांसरसोपेता वस्तयो
बृंहणाः स्मृताः ॥ १५७ ॥

बृंहण औषधियोंके काथमें मधुरादिगणकी औ-
षधियोंका कल्क मिलाकर तथा घी और मामरस
डालकर जो वस्ति दीजाती है उसको बृंहणवस्ति
कहते हैं ॥ १५७ ॥

शताह्वा शिशुसिद्धार्थवक्रा क्रौञ्चव-
चाघनैः । राठेन्द्रयवसिंधूतैः पिष्टैर्ब-
रितः प्रकल्पितः ॥१५८॥ दशमूलर-
सक्षौद्रतैलकाञ्जिकयोगतः । शोधनो
दोषनाशाय पुष्टिवर्णाग्निवर्धनः १५९ ॥

सौफ, सहिजना, सफेद सरसों, तगर, पीपल, वच,
नागरमोथा, हींग, इन्द्रजौ और सैधानमक इन सबका
एकत्र कल्क बनाकर उसको दशमूलके काथ,
शहद, तेल और कांजीमें मिलाकर उसके द्वारा
वस्ति लगावे। यह वस्ति-शोधन, दोषनाशक तथा
पुष्टि, वर्ण और अग्निको बढ़ानेवाली है १५८ ॥ १५९

चत्वारो मदनाः पिष्टाः क्षौद्रतैलच-
तुष्पलम् । कुडवं मांसनियर्थासाद-
त्वाद्धै रुचकाद्भवेत् ॥ १६० ॥ बल-
वर्णकरो वस्तिवृष्यो मांसबलप्रदः ।
वातशोपितदेहानां बृंहणः स्थैर्य-
कारकः ॥ १६१ ॥

मैनफलका कल्क चारपल, शहद चार पल, तेल
चार पल, मांसरस १ कुडवपरिमाण और सैधानमक
आधा कुडवपरिमाण लेवे। इन सबको एकत्र मिला-
कर वस्ति लगावे। यह वस्ति- बल और वर्णको
बढ़ाती है, वीर्यको उत्पन्न करती है, मांस और
बलप्रदायक है। तथा वायुसे जिनके जरीर सूख-
गये हैं उनको पुष्ट और स्थिर करनेवाला
है १६० ॥ १६१ ॥

पटोलनिम्बभूनिम्बरास्नासप्तच्छदा-
म्भसः । चत्वारः प्रसृता ह्येको घृ-
तात्सर्षपकल्कतः ॥ निरूहः पञ्चति-
क्तोऽयं मेहाभिष्यन्दनाशनः ॥ १६२ ॥

पटोलपत्र, नीम, चिरायता, रायसन और
सतवन इनके चार प्रसृत काथमें एक प्रसृत घी
और सरसोंका कल्क डालकर वस्ति देंवे। यह
पंचतिक्तवस्ति प्रमेह और अभिष्यन्दको नष्ट कर-
नेवाली है ॥ १६२ ॥

विडङ्गात्रिफलादन्तीसुस्ताखुपर्णिका-
स्तथा । कषायाः प्रसृताः पञ्च तैला-
देको विमथ्य तान् । विडङ्गादिकपा-
येण निरूहः कफनाशनः ॥ १६३ ॥

वायविडंग, त्रिफला, दन्ती, नागरमोथा और
सूपाकर्णी इनका काथ पाँच प्रसृत और तेल एक
प्रसृत लेकर उन सबको एकत्र मर्दन करके वस्ति
देवे विडंगादिके काथके द्वारा बनाया हुआ यह
निरूह कफको नष्ट करता है ॥ १६३ ॥

मधुतैलिकवस्ति ।

मधुतैलात्प्रकुञ्चाः षट् षट् चैरण्ड-
कषायतः । युक्तः सैन्धवकर्षेण शता-
ह्वार्द्धपलेन च ॥१६४॥ बल्यो वृष्यो
निरूहोऽयं मलहन्मधुतैलिकः । गु-
लमोदावर्त्तवृद्धयर्शोमेहहन्ता निर-
त्ययः ॥ १६५ ॥

शहद और तल छः२ पल, अण्डीका काथ छः पल,
सैधेनमकका कल्क १ तोला और सौफका कल्क
दो तोले डालकर सबको एकत्र मथकर निरूहण-
वस्तिके द्वारा प्रयोग करे यह मधुतैलिक
वस्ति बलकारक, वीर्यजनक, मलको हरण करने-
वाली, तथा गुल्म, उदावर्त्त, अण्डवृद्धि, ववासीर
और प्रमेहको सदैव नष्ट करती है ॥१६४॥ १६५ ॥

एरण्डकाथतुल्यंशं मधुतैलपलाष्टक-
म् । शतपुष्पापलाद्धै च सैन्धवा-
क्षणसंयुतः ॥ १६६ ॥ बलवर्णकरो
वस्तिवृष्यो दीपनबृंहणः । भेदोगुल्म-
कृमिहृद्गीहृद्योदावर्त्तनाशनः ॥१६७ ॥

अण्डिका काथ ३२ तोले, शहद और तेल ३२ तोले, सौफ २ तांले और सैधानमक १ तोला लेवे । सबको अच्छेप्रकार मथकरके निरूहणवस्ति देनेसे बल और वर्णकी वृद्धि होती है । तथा वीर्य उत्पन्न होता है, अग्नि दीयन होती है, शरीर पुष्ट होता है एवं मेद, गुल्म, कृमि, ग्रीहा, मल और उदावर्त्तादिरोग नष्ट होते हैं ॥ १६६ ॥ १६७ ॥

मधुतैले समे स्यातां काथश्चैरण्डमूलजः । पलाद्धं शतपुष्पायास्ततोऽर्द्धं सैन्धवस्य च ॥ १६८ ॥ फलेनैकेन संयुक्तः खजेन तु विलोडितः । देयः सुखोष्णो भिषजा मधुतैलिकसंज्ञकः ॥ १६९ ॥

शहद और तेल तथा अंडका काथ ये सब समान भाग, सौफका कलक २ तोले, सैधानमक १ तोला और मैनफल १ पल लेवे । इन सबको एकत्र करलीसे अच्छेप्रकारसे मथकर सुखोष्णवस्तिके द्वारा प्रयोग करे । इसको मधुतैलिकवस्ति कहते हैं ॥ १६८ ॥ १६९ ॥

तदेव मधुतैलञ्च काथः सरससैन्धवः । पिप्पलीफलसंयुक्तो वस्तिर्युक्तरथः स्मृतः ॥ १७० ॥

इसी मधुतैलिकवस्तिमे यदि शहद, तेल, काथ, स्वरस, सैधानमक, पीपल और मैनफल डालकर वस्ति देवे तो इसको युक्तरथवस्ति कहते हैं ॥ १७० ॥

चतुष्पलं तु मधुनस्तैलस्यापि चतुष्पलम् । एरण्डमूलकाथस्य तथा देयं पलाष्टकम् ॥ १७१ ॥ पलाद्धं शतपुष्पायास्ततोऽर्द्धं सैन्धवस्य च । मदनस्य पलञ्चैकं योज्यं युक्त्या विमर्दयेत् ॥ १७२ ॥ रसक्षीराम्लमूत्राणामाज्यञ्च पलमात्रकम् । खजेनालोडितः कोष्णो मधुतैलिकसंज्ञितः ॥ १७३ ॥ पादहीनोऽपि देयः स्याद्द्वस्तिर्लेखनवृंहणः । दीपनो गाढविट्कन्नः कृमीणां नाशनः पर ॥ १७४ ॥

पाचनो निष्परीहारः मुखदो निरुपद्रवः । पुटकैकं प्रदानेन सिद्धोऽयं वस्तिरुत्तमः ॥ १७५ ॥

शहद १६ तोले, तेल सोलह तोले, अडणके जड़का काथ ३२ तोले, सौफ २ तोले, सैधानमक १ तोला और मैनफल १ पल डालकर सबको एकत्र करके युक्तिपूर्वक मर्दन करे पश्चान् उसमे मांसरस, दूध, कांजी, गोमूत्र और घृत ये प्रत्येक चार चार तोले डालकर करलीसे खुब मर्दन करके उसकी सुहाता सुहाता विधिपूर्वक वस्ति लगावे । इसको मधुतैलिक वस्ति कहते हैं । यह पादहीन दी हुई भी वस्ति लेखन और वृद्धिके गुणोको करती है । तथा अग्निको दीपन करती है, गाढे मलको हरण करती है, कृमियोंको नष्ट करती है और पाचन है । इसपर कुछ पहरेज नहीं है । यह सुखकारक और उपद्रवरहित है । एक ही पुटके देनेसे यह उत्तमवस्ति सिद्ध होजाती है ॥ १७१-१७५ ॥

यापनवस्ति ।

क्षौद्राज्यक्षीरतैलानां प्रसृतं प्रसृतं भवेत् । हपुषासैन्धवाक्षांशो वरितः स्याद्यापनः परः ॥ १७६ ॥

शहद, घी, दूध और तेल ये प्रत्येक एक एक प्रसृत तथा हाऊरेर और सैधानमक इनका कलक एक एक तोला डालकर जो वस्ति दीजाती है उसको यापनवस्ति कहते हैं ॥ १७६ ॥

शुद्धवस्ति ।

गोमूत्रस्य पलान्यष्टौ गुडाऽत्यम्लकयोः पलम् । शताह्वासैन्धवे स्यातामक्षमात्रे प्रमाणतः ॥ १७७ ॥ देय आमोऽनिले रूक्षे तद्वत्तैलपलान्वितः । उदावर्त्ते वातकोष्ठे सिद्धवस्तिरिति स्मृतः ॥ १७८ ॥

गामूत्र आठ पल, गुड और चूक ये प्रत्येक चार चार तोले तथा सौफ और सैधानमक ये प्रत्येक एक एक तोला हों, सबको अच्छेप्रकारसे मथकर और चार तोले तेलमे मिलाकर उसको आमवात, उदावर्त्त,

रूक्षता और वातकोष्ठ इत्यादि रोगोमे वस्तिके द्वारा प्रयोग करे । इसको सिद्धवस्ति कहते है १७७-१७८

क्षारवस्ति ।

सैन्धवाक्षं समादाय शताह्वाक्षसम-
न्वितम् । गोमूत्रस्य पलान्यष्टाव-
म्लिकायाः पलद्वयम् ॥ १७९ ॥
गुडस्य तु पले द्वे तु सर्वमालोड्य
यत्नतः । वस्त्रपूतं सुखोष्णश्च वस्ति
दद्याद्विचक्षणः ॥ १८० ॥ शूलं वि-
ट्संगमानाहं मूत्रकृच्छ्रश्च दारुणम् ।
कृम्युदावर्तवातादीन् सद्यो हन्या-
त्प्रयोजितः ॥ १८१ ॥

सैधानमक १ तोला, सौफ १ तोला, गोमूत्र आठ पल, इमली दो पल और गुड दो पल लेवे। इन सबको एकत्र अच्छे प्रकारसे मर्दन करके वस्त्रोपे डानकर मंदोष्ण वस्ति देवे। यह क्षारवस्ति शूल, मलबन्ध, आनाह, दारुण मूत्रकृच्छ्र, कृमि, उदावर्त और वातादिरोगोंको नत्काल नष्ट करदेती है ॥ १७९ ॥ १८० ॥ १८१ ॥

मूत्रवस्ति ।

अष्टौ पलानि मूत्रस्य रुबुकाथाच्चतु-
ष्पलम् । पलद्वयं तु तैलस्य माक्षि-
कप्रसृतं तथा ॥ १८२ ॥ रसकक्षीर-
सौवीरतित्तिडीकम्पलम्पलम् । गु-
डादेकं पलं दद्यान्मदनस्य पलं तथा ॥
॥ १८३ ॥ शतपुष्पा वचा रास्ना कु-
ष्ठदारुघनं निशा । सिद्धार्थकं बि-
ल्वपेशी यवानीसैन्धवं बला ॥ १८४ ॥
कर्षान्वितं श्लक्ष्णापिष्टं खजेनाशु प्र-
मथ्य च । युञ्ज्यान्निरूहवत्प्राज्ञो नि-
रपायं महद्गुणम् ॥ १८५ ॥ मूत्रव-
स्तित्तिरिति ख्यातः सर्वव्याधिहरः
परः ।

गोमूत्र ८ पल, अंडका काथ ४ पल, तिलका तेल २ पल, गहद १ प्रसृत, मामरस, दूध, काँजी और इमली ये प्रत्येक चारचार तोले, गुड १ पल, मंत्रफल १ पल, तथा सौफ, वच, रायसन, कूठ, देव-

दारु, नागरमोथा, हलदी, सरसो, बेलगिरी, अजवायन, सैधानमक और खिरैटी ये प्रत्येक औषधि एक एक तोला लेवे । इन सबको बारीक पीसकर और कर-छीसे अच्छे प्रकार मथकर निरूद्धके समान प्रयोग करे । इसपर कुछ परहेज नहीं है । यह महान् गुणोंको करती है । इसको मूत्रवस्ति कहते है । यह सर्व प्रकारके रोगोंको हरनेवाली है ॥ १८२-१८५ ॥

वैतरणवस्ति ।

सिन्धूद्रवस्य कर्षमल्लीकायाः पलं
गुडाद्धपलम् । सुरभीपयसः कुडवः
सर्वैरैतैः कृतो वस्तिः ॥ १८६ ॥ ईष-
तैलयुतोऽयं भुक्ते दत्ते निहन्ति रोगग-
णम् । कट्यूरूपृष्ठशोथं शूलं चामा-
निलं घोरम् ॥ १८७ ॥ चिरभवमूर्ख-
स्तम्भं गृध्रासिरोगं च जानुसंकोचम् ।
विषमज्वराणि घोरं क्लैब्यश्च विना-
शितायाशु ॥ १८८ ॥ वस्तिवैतरणो-
क्तो गुणगणयुक्तः सुविख्यातः १८९ ॥
भोजयित्वा च सायाह्ने सर्वस्याय
प्रशस्यते । अथ चेद्वलवान् जन्तुरभु-
क्त्वापि तदा क्वचित् ॥ १९० ॥

सैधानमक १ तोला, इमली चार तोले, गुड २ तोले, गोदुग्ध १ कुडवपरिमाण और कुछ थोडासा तेल इन सबको एकत्र मिलाकर अच्छे प्रकारसे मथकर भोजन करनेके पश्चान् वस्तिके द्वारा व्यवहार करे । यह वस्ति कटी, ऊरु और पृष्ठका शोथ, शूल और वायुके रोगोंको दूर करती है तथा बहुत दिनोंके ऊरुस्तम्भ, गृध्रासिरोग, जानुसंकोच, घोर विषमज्वर और क्लीवताको भी शीघ्र नष्ट करती है । यह वैतरणवस्ति अनेकगुणोंके समूहसे युक्त है। भोजन कराकर संध्याके समय इसको देना चाहिये। और जो बलवान् मनुष्य हो तो उसको बिना भोजन कराये भी कभी कभी वैतरणवस्तिको प्रयोग करे ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ १८९ ॥ १९० ॥

अर्द्धमात्रिकनिरूह ।

दशमूलीकषायस्य पलान्यष्टौ पल-

द्वयम् । तैलस्य मधुनश्चाथ शताह्वा-
क्षं प्रयोजयेत् ॥१९१॥ अक्षश्च सैन्ध-
वस्येष्टं वस्तिरेभिर्महागुणः । आत्रे-
यानुमतो ह्येष भुक्ते योज्यो विचक्षणैः
॥१९२॥ नित्यमेकान्तरं वापि परिहा-
रविवर्जितः । सुकुमारेषु वृद्धेषु स्त्रीषु
यन्त्रणभीरुषु ॥ दीयमानो निह-
न्याशु दोषानीकान् सुदुस्तरान् ॥
॥ १९३ ॥ वातरक्तं क्षयं कास कुष्ठश्च
विषमज्वरम् । अश्मरीं मूत्रकृच्छश्च
गुल्मह्रीहहलीमकम् ॥ १९४ ॥ वात-
पित्तभवान् रोगान् कफजान् सान्निपा-
तिकान् । तान् सर्वात्राशयत्याशु
बलवर्णाग्निवर्द्धनः ॥ १९५ ॥ नैरूहि-
केषु सर्वेषु वस्तिषु प्रवरो मतः । शु-
क्रसंजननो वृष्यश्चाद्धमात्रिकसंज्ञ-
कः ॥ १९६ ॥

द्वयमूलका काथ ८ पल, तेल और शहद दो
पल, सौफका कलक एक तोला और सैधानमक एक
तोला सबको एकत्र अच्छे प्रकारसे मथकर इनके द्वारा
दीहुई वस्ति अनेक गुणोंको करती है । आत्रेयादिके
मतसे भोजन करने पश्चात् इसको प्रयोग करे ।
नित्य अथवा एक दिनको छोडकर तीसरे दिन
परहेजका त्याग करके सुकुमार, वृद्ध, स्त्री और
जो पीडासे भयभीत हों उनके प्रयोग कीहुई यह
वस्ती अनेक प्रकारके दुस्तर दोषोंको दूर करती है ।
तथा वातरक्त, क्षय, खाँसी, कोढ़, विषमज्वर,
अश्मरी, मूत्रकृच्छ, गुल्म, सान्निपातजनितरोग इन
सबको यह तत्काल नष्ट करती है । तथा बल,
वर्ण और आग्नि को बढ़ाती है । यह सर्वप्रकारकी
निरूहवस्तिओंमें उत्तम है । इसको अर्धमातृकावस्ति
कहते हैं । यह वस्ति शुक्रको उत्पन्न करनेवाली
और अतीव पुष्टिकर है ॥ १९१-१९६ ॥

शतशः सन्ति निरूहाः सुश्रुतचरका-
दिमुनिगदिताः । भिषजा पुनरमुनैव
व्यवहारश्चाद्धमात्रेण ॥ १९७ ॥

निरूहवस्ति सैकडो है जो कि, सुश्रुत और
चरकादि ऋषियोंने कही है । किन्तु वे लोग इसी
वस्तिको अर्धमात्रासे व्यवहार करते हैं ॥ १९७ ॥

एरण्डाद्यनिरूह ।

एरण्डमूलं त्रिफला पलांशा ह्रस्वानि
मूलानि पलानि पञ्च । रास्नाश्वगन्धा
सबलागुडूची पुनर्नवारग्वधदेवदारु
॥ १९८ ॥ भागाः पलांशा मदनाष्ट-
युक्ता जले द्विकंसे कथिताष्टशेषे ।
पेष्याशताह्वाहपुषाप्रियंगुसपिप्पली-
कं मधुकवचा च ॥ १९९ ॥ रसा-
ञ्जनं वासकबीजमुस्तमक्षप्रमाणं लव-
णांशयुक्तम् । समाक्षिकस्तेलयुतः
समूत्रो वस्तिर्नृणां लेखनदीपनीयः
॥ २०० ॥ जंघोरुपादत्रिकपृष्ठशूलं
कफावृतं मारुतविग्रहश्च । विण्मूत्रवा-
तग्रहणं सशूलमाध्मानकं साश्मरि-
शर्कराश्च । आनाहमर्शोग्रहणीप्र-
दोषानेरण्डवस्तिः शमयेत्प्रयुक्तः २०१ ॥

अण्डकी जड और त्रिफला ये प्रत्येक चार चार
तोले, लघुपंचमूल २० तोले, रास्ना, असगव, खिरैटी,
गिलोय, विषखपरा, अमलतास और देवदारु ये प्रत्येक
औषधि चार चार तोले और भैतफल आठ इन
सबको दो आठक जलमें पकावे । जब पकते पकते
जल आठवा भाग बाकी रहजाय तब उतार कर
छानलेवे । फिर इसमें सौरु, हाऊवेर, फूलाप्रियंगू,
पीपल, मुलैठी, वच, रसौत, अड्डसेके बीज और
नागरमोथा ये प्रत्येक औषधि एक एक तोला परि-
माण मिलाकर तथा सैधानमक, एव शहद, तैल और
गोमूत्र एक पल डालकर सबको अच्छे प्रकारसे
मथकर वस्तिक द्वारा प्रयोग करे । यह वस्ति-लेखन
और दीपन है । तथा जंघा, ऊरु, पाद, त्रिक और
पृष्ठशूल, कफ, आवृत वायु और वायुके विकार, मल,
मूत्र और वायुका अवरोध, शूल, आध्मान, अश्मरी,
शर्करा, आनाह, अर्श और सत्रहणी इन सबको यह
एरण्डवस्ति नष्ट करदेती है ॥ १९८-२०१ ॥

स्नेहं गुडं मांसरसं पयश्च ह्यम्लानि
मूत्रं मधुसैन्धवश्च । एतान्यनुक्तान्य-
पि दापयेच्च निरूहयोगे मदनात् फ-
लश्च ॥ २०२ ॥

स्नेह, गुड, मांसरस, दूध, खटाई, गोमूत्र, शहद और सैधानमक ये यदि निरूहवस्तिमे नहीं भी कहे हो तो भी डालने चाहिये और इसीप्रकार मैनफल भी अवश्य डालना चाहिये ॥ २०२ ॥

लवणं कार्षिकं दद्यात् फलमेकन्तु
मादनम् । वाते गुडः सिता पित्ते कफे
सिद्धार्थकादयः ॥ २०३ ॥

सैधानमक १ तोला और मैनफल १ डांसे । वायु-के रोगमे गुड मिलावे । पित्तके रोगमे मिश्री मिलावे । और कफके रोगमे सरसो आदि डाले ॥ २०३ ॥

विट्श्लेष्मपित्तानिलमूत्रकर्षादाढ्या-
वहः शुक्रबलप्रदश्च । विट्कं स्थितं
दोषचयं निरस्य सर्वान् विकारान्
शमयेन्निरूहः ॥ २०४ ॥

निरूहवस्ति-मल, कफ, पित्त, वात और मूत्रको कर्षित करती है, तथा दृढता, शुक्र और बलको बढ़ाती है । मल विवन्धको और संचित दोषोको निकालकर सब प्रकारके विकारोको दूर करती है ॥ २०४ ॥

ज्वरेच्छर्द्यामतीसारे गूढशल्यादितेषु
च । हृदोग्रहे कृताहारे दुर्बले व्या-
धिकर्षिते ॥ २०५ ॥ क्षीणे रक्ताति-
सारे च तथा मूर्च्छातिकर्षिते । प्रथि-
नानां नराणाञ्च निरूहो न प्रश-
स्यते ॥ २०६ ॥

ज्वर, वमन, अतिसार और जिसके शरीरमे गूढ शल्या प्रविष्ट हो उसके हृदयरोग, तथा आहारके करनेपर दुर्बलता और व्याधिसे कृशता होनेपर एवं क्षीण, रक्तातिसार और मूर्च्छासे अत्यंत पीडित, इन कहे हुए सम्पूर्ण मनुष्योंके निरूह वस्ति नहीं देनी चाहिये ॥ २०५ ॥ २०६ ॥

पीतस्नेहस्य वान्तस्य विरिक्तस्य मू-
तासृजः । निरूहितस्य कायाग्निर्म-
न्दो भवति देहिनः ॥ २०७ ॥

स्नेहपान, वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण और निरूहण वस्ति इनको सेवन करनेवाले मनुष्यके शरीरकी अग्नि मन्द होजाती है ॥ २०७ ॥

स चाल्पैर्लघुभिश्चान्नेरूपयुक्तैर्विवर्द्ध-
ते । काष्ठैरणुभिरल्पैश्च संधुक्षित
इवानलः ॥ २०८ ॥

वह मंद अग्नि-थोडे और हलके अन्नोको भोजन करनेसे शीघ्र ही वृद्धिको प्राप्त होजाती है, जिसप्रकार काठके बहुत छोट छोट टुकड़ोंके योगसे वाली हुई अग्नि अत्यंत प्रचण्ड होजाती है ॥ २०८ ॥

युक्तेऽग्नौ जीवति चिरं रोगी स्याद्वि-
कृतिं गते । शान्ते पञ्चत्वमायाति
देही तस्माद्द्वरोऽनलः ॥ २०९ ॥

अग्निके दीप्त होनेपर, रोगी विकृत होजानेपर भी जीता रहता है और अग्निके शांत होनेपर मनुष्य मृत्युको प्राप्त होजाता है । इसकारण शरीरमे अग्नि प्रधान है ॥ २०९ ॥

पथ्य ।

कालस्तु वस्तिष्वनुयाति यावत्तावद्भ-
वेद्वै परिहारकालः ॥ अत्याशनस्था-
नवचांसि पानं स्वप्नं दिवामैथुनवेग-
रोधान् । शातोपवातातपशाफरोषां-
स्त्यजैदकालाहितभोजनश्च ॥ २१० ॥

जबतक वस्ति बाहर नहीं आवे तबतक मनुष्यको इसपर पथ्य करना चाहिये । एव अत्यंत भोजन, अत्यंत बैठे रहना, अत्यंत बोलना, पान, दिनमे सोना, मैथुन, मलमूत्रके बगोंको रोकना शीत, वायु, धूप, शोक, क्रोध, अकालमे भोजन और आहित भोजन इन सबको त्याग देवे ॥ २१० ॥

अथोत्तरवास्तावधि ।

वस्तेरुत्तरसंज्ञस्य विधिं वक्ष्याम्यतः
परम् । द्वित्रयास्थापनतः शुद्धा निद-
ध्याद्वास्तिमुत्तरम् ॥ २११ ॥

अब उत्तरवस्तिके विधानको कहता हूँ । प्रथम दो तीन आस्थापनवस्ति देकर शुद्ध कियहुय मनुष्यके पश्चात् उत्तरवस्ति देना चाहिये ॥ २११ ॥

आतुराङ्गुलिमोनेन नेत्रन्तु द्वादशाङ्गुलम् । वृत्तं गोपुच्छवन्मूलं मध्ययोः कृतकर्णिकम् ॥ २१२ ॥

रोगीके अंगुलके बराबर वस्तिकी नली बारह अंगुलकी बनावे उसकी मूल-गोल और गायकी पूछके समान होनी चाहिये और उसके बीचमें सुन्दर कर्णिका बनावे ॥ २१२ ॥

सिद्धार्थवाहिच्छिद्राग्रं हेमरूप्यादिनिमित्तम् । चतुर्दशाङ्गुलं नेत्रं तत्र कार्यं विजानता ॥ २१३ ॥ मालतापुष्पवृत्ताभं कर्त्तव्यं छिद्रमेव च । भेदायामसमं केचिदिच्छन्ति खलु तद्विदः ॥ २१४ ॥

जिसमें सरसों चलीजाये ऐसा छिद्र करै और सुवण अथवा चाँदीकी वस्ति बनावे । कोई वैद्य कहते हैं कि चौदह अंगुलकी नली बनावे और उसमें चमेली फूलके समान गोल छिद्र करे और कोई वैद्य कहते हैं कि वह लिंगके समान होनी चाहिये ॥ २१३ ॥ २१४ ॥

स्नेहप्रमाणं परमं प्रकुञ्चं चात्र कीर्तितम् ॥ २१५ ॥ पञ्चविंशतिवर्षाणामधोमात्रा द्विकार्णिकी । तदूर्ध्वम्पलमात्रा च स्नेहस्योक्ता भिषगवरैः ॥ २१६ ॥

इसमें स्नेहका उत्कृष्ट मात्रा चार तोलेकी कही है । पञ्चीसवर्षसे कम अवस्थावाले मनुष्यको दो कर्णकी मात्रा देवे और ऊपरकी अवस्थावाले मनुष्यको १ पलकी मात्रा करे इसप्रकार वैद्याचार्योंने स्नेहकी मात्रा कही है ॥ २१५ ॥ २१६ ॥

निविष्टकर्णिकं भेदे नारीणां चतुरङ्गुलम् । मूत्रस्रोतः परीणाहं सुद्रवाहि दशाङ्गुलम् ॥ २१७ ॥

कर्णिका पर्यन्त पुरुषके लिंगमें वस्ति प्रविष्ट करे । स्त्रियोंके लिये उसमें चार अंगुलकी कर्णिका बनावे और उसकी गोलाई मूत्रके मार्गके समान होनी चाहिये । तथा जिसमें मूंग निकलजाय ऐसा छिद्र और उसकी लम्बाई दश अंगुलकी होनी चाहिये ॥ २१७ ॥

तासामपत्यमार्गे तु निदध्याच्चतुरङ्गुलम् । द्रव्यङ्गुलं मूत्रमार्गे तु कन्यानां त्वेकमङ्गुलम् । विधेयश्चाङ्गुलश्चासां विधिवद्द्रक्ष्यते यथा ॥ २१८ ॥

स्त्रियोंके गर्भाशयमें यदि यह पिचकारी लगानी हो तो चार अंगुल प्रविष्ट करे और मूत्रमार्गमें लगानी हो तो दो अंगुल प्रविष्ट करे । किन्तु कन्याओके लगानी हो तो एक अंगुलकी पिचकारी लगावे । यह स्त्रियोंके अंगुलका प्रमाण स्त्रियोंके ही अंगुलसे मापना चाहिये ॥ २१८ ॥

स्नेहस्य प्रसृतं चात्र स्वाङ्गुलीमूलसम्मितम् । एवं प्रमाणं विहितमर्थाद्बुद्धिविकल्पितम् ॥ २१९ ॥

स्नेहका जो यहाँ प्रसृत मानागया है, वह रोगीके अंगुलियोंकी जडसे नापाजाता है, इसप्रकारका प्रमाण कम या ज्यादाह अपनी बुद्धिकी कल्पनासे विधान करे ॥ २१९ ॥

औरभ्रः शौकरी वापि वस्तिराजश्च पूजितः । उदलाभे नियुञ्जीत गलचर्भं च पक्षिणाम् ॥ २२० ॥

स्त्रियोंके लिये मेढा, सूअर और बकरा इनके कोमल चर्मकी वस्ति बनावे और जो ये न मिलसके तो पक्षियोंके गलेके चमडेकी बनावे ॥ २२० ॥

अथातुरमुपस्निग्धं सुस्त्रिन्नं प्रथिताशयम् । यवागूं सवृत्क्षीरां पीतवन्तं यथाबलम् ॥ २२१ ॥

रोगीको प्रथम स्निग्ध और स्वेदित करके जब उसको आशय विस्तृत होजाय तब उसको बलानुसार घृत और दूधयुक्त यवागू पिलोव ॥ २२१ ॥

निषण्णमाजानुसमे पीठे स्थानाश्रये समे । स्वभ्यक्तवस्तिमूर्द्धानं तैलेनोष्णेन युक्तितः ॥ २२२ ॥ ततः समं स्थापयित्वा नालमस्य प्रहर्षितः । पूर्वं शलाकयान्विष्य मार्गे नेत्रमन्तरम् ॥ २२३ ॥ शनैःशनैर्वृताभ्यक्तं निदध्यादङ्गुलानि षट् । ततोऽवपीडयेद्वस्तिं शनैर्नेत्रश्च निर्हेरता ॥ २२४ ॥

ततः प्रयोजितस्नेहमपराह्णे विचक्षणः । पयसा भोजयेदेनं यूषैर्मांसरसेन च ॥ २२५ ॥ अनेन विधिना दद्याद्बस्तीस्त्रीश्वतुरोऽपि वा । ततः प्रत्यागते स्नेहे स्नेहबलिक्रमो हितः ॥ २२६ ॥

पश्चात् समान भूमिपर स्थित घुटनोंपर्यंत ऊंचे आसनपर रोगीका बैठाकर उसके बस्तिस्थानपर गरमतेलको मलदेवे । पश्चात् रोगीके लिंगको समान करके प्रथम सलाईसे खोलकर पश्चात् नलीसे खोले फिर उसपर घृत चुपडकर धीरे धीरे छः अंगुलकी पिचकारी उसमे प्रविष्ट करे पश्चात् बस्तिको कुलएक पीडित करके धीरेसे पिचकारीको निकाललेवे । जब बस्तिद्वारा लगाया हुआ स्नेह बाहर आजावे तब अपराह्णके समय उसको दूध, यूप और मांसरसके साथ भोजन करावे । इसप्रकार तीन या चार बस्ति देवे । बस्तिगतस्नेहके बाहर निकल आने पर स्नेहबस्तिको क्रम करे ॥ २२२-२२६ ॥

स्त्रीणां कनिष्ठिकास्थूलं नेत्रं कुर्व्यादशांगुलम् । मूत्रकृच्छ्रविकारेषु बालानां त्वेकमंगुलम् ॥ २२७ ॥

स्त्रियोंके लिये उत्तरवस्तिकी नली कनिष्ठिकाअंगुलीके समान स्थूल और दश अंगुल लम्बी होनी चाहिये और बालकोंके मूत्रकृच्छ्रविकारमे यदि बस्ति देनी हो तो एक अंगुलकी नली बनावे ॥ २२७ ॥

योनिमार्गेषु नारीणां स्नेहमात्रा द्विपालिकी । मूत्रमार्गेषु पलोन्माना बालानाश्च द्विकार्षिकी ॥ २२८ ॥

स्त्रियोंके गर्भाशयमे बस्ति लगानी हो तो उसके स्नेहकी मात्रा दो पलकी करनी चाहिये, मूत्रमार्गमे पिचकारी लगानी हो तो चार तोले स्नेह डालना चाहिये और बालकोंके लिये स्नेह २ तोले डालना चाहिये ॥ २२८ ॥

उत्तानायै स्त्रियै दद्याद्दूर्ध्वजान्वै समाहितः । कन्येतरस्यै कन्यायै तद्वत्सम्यङ्निपीडयेत् ॥ २२९ ॥ त्रिक-

णिकेन नेत्रेण दद्याद्योनिमुखं प्रति । गर्भाशयविशुद्धयर्थं स्नेहेन द्विगुणेन तु ॥ २३० ॥

स्त्रीको साधा चित्त सुलाकर और उसके घुटने ऊपरको करके पिचकारी मारे । जो कन्याके पिचकारी लगानी हो तो उसको अच्छेप्रकारसे पीडित करके तीन कर्णिकावाली नली उसकी योनिके मुखमें लगावे । गर्भाशयकी शुद्धिके लिये द्रुगुने स्नेहकी पिचकारी लगावे ॥ २२९ ॥ २३० ॥

अप्रत्यागच्छति भिषग्वस्ता उत्तरसंज्ञके । भूयो बस्ति निदध्यात्तु संयुक्तं शोधनौषधैः ॥ २३१ ॥

जो उत्तरवास्तिमें दिया हुआ स्नेह बाहरको नहीं निकले तो फिर वैद्य शोधन औषधियोंकी मिश्रित दूसरी पिचकारी लगावे ॥ २३१ ॥

पायौ बस्ति निदध्यात्तु प्रोक्तं गुल्मचिकित्सिते । प्रवेशयेद्वा मतिमान् फलवर्ति तु योनिगाम् ॥ २३२ ॥

अथवा बुद्धिमान वैद्य गुल्मचिकित्सामे कहे विधिके अनुसार गुदामे बस्ति लगावे या योनिमार्गमे फलवर्ती प्रविष्ट करे ॥ २३२ ॥

सूत्रैर्विशिष्टान्तां स्निग्धां शोधनद्रव्यसंगुताम् । पडियेद्वाप्यधोनाभेर्वस्तेरुपरि वेष्टिताम् ॥ २३३ ॥

अथवा सूतसे बंधीहुई, शोधन द्रव्योसे मिलीहुई और चिकनी बत्ती बनाकर उसको योनिमे रक्खे । अथवा बस्तिस्थान (मूत्राशय) के ऊपर मोटा कपडा लपेट कर नाभिके नीचे मुट्टीसे दबावे ॥ २३३ ॥

आरग्वधस्य पत्रेण निर्गुण्ड्याः स्वरसेन च । कुर्व्याद्गोमूत्रपिष्टेन वर्तिश्चापि ससैन्धवाम् ॥ २३४ ॥ मुद्गैलासर्षपसमां प्रविभिद्य वयांसि च । बस्तेरागमनार्थाय तां निदध्याच्छलाकया ॥ २३५ ॥

अमलतासके पत्तोंको निर्गुण्डीके स्वरस, गोमूत्र और सैधानमक इन सबके साथ एकत्र पीसकर मूँग,

इलायचीके दाने और सरसोके समान मुखवाली अवस्थाके अनुसार वत्ती बनाकर उसको वस्तिके निकालनेके लिये सलाईसे चढावे ॥ २३४ ॥ २३५ ॥

आगारधूमवृहतीफलपिप्पलिसैन्धवैः ।
त्रिवृताशुक्तगोमूत्रसुरापिष्टैः सना-
गरैः ॥ २३६ ॥

घरका धुआँ, बडी कटेरीके फल, पीपल, सैधान-
मक, निसोत, कांजी, गोमूत्र, मदिरा और सोंठ इन
सबको एकत्र पीसकर वत्ती बनाकर प्रयोग करे २२६

दह्यमाने भिषगवस्तौ पायौ वस्ति
प्रदापयेत् । क्षीरिवृक्षकषायेण पय-
सा शीतलेन च ॥ शर्करामधुमि-
श्रेण शीतेन मधुकाम्बुना ॥ २३७ ॥

वस्तिमें यदि तीक्ष्ण औषधियोंके प्रयोगसे दाह हो
तो वैद्य दूधवाले वृक्षोंके काथके द्वारा अथवा शीतल
दूधके द्वारा अथवा मुँहठीके शीतल काथमे मिश्री
और शहद डालकर पिचकारी लगावे ॥ २३७ ॥

वस्तिः शुक्ररुजः पुंसां स्त्रीणामार्त्त-
वजा रुजः । हन्यादुत्तरवस्तिस्तु
नोचितो मेहिनां क्वचित् ॥ २३८ ॥

यह उत्तरवस्ति पुरुषोंके सर्वप्रकारके शुक्रदोषोंको
और स्त्रियोंके आर्त्तवके विकारोंको नष्ट करती है ।
किन्तु यह वस्ति प्रमेहरोगियोंको कदापि हितकारी
नहीं है ॥ २३८ ॥

अपिच ।

शुक्रं दुष्टं शोणितं चाङ्गनानां कष्टं
शान्तिं याति चासृग्दरश्च । मूत्रा-
घातं मूत्रदोषान् प्रवृद्धान् योनिदो-
षांश्चापराऽघातसंज्ञम् ॥ २३९ ॥ शु-
क्राघातं शर्करामशमरीश्च शस्तं व-
स्तौ वक्षणे मेहने च । घोरानन्यान्
वस्तिजातांश्च रोगांश्चार्त्तं मेहादुत्तरो
हन्ति वस्तिः ॥ २४० ॥

विधिपूर्वक प्रदान कीहुई उत्तरवस्ति—दूषित वीर्य्य,
दूषितरज, कष्टसान्य प्रदररोग, मूत्राघात, बढेहुए
मूत्रदोष, योनिविकार, जराके रुकनेके विकार, शुक्रा-

घात, शर्करा, अशमरी, वस्तिरोग, लिंगरोग, वक्ष्णरोग
और अन्यान्य घोर वस्तिजनित रोग प्रमेहके बिना
इन सबको यह वस्ति नष्ट करवेती है ॥ २३९ ॥ २४० ॥

सम्यग्दत्तस्य लिङ्गश्च व्यापदः क्रम
एव च । वस्तेरुत्तरसंज्ञस्य समानं
स्नेहवस्तिना ॥ २४१ ॥

अच्छे प्रकारसे दी हुई उत्तरवस्तिके लक्षण, रोग
और क्रम ये सब स्नेहवस्तिके समान जानने ॥ २४१ ॥

घृताभ्यक्ते गुदे क्षेप्या श्लक्षणा स्वां-
गुष्ठसन्निभा । मलप्रवर्त्तिनी वत्तिः फ-
लवर्त्तिश्च सा स्मृता ॥ २४२ ॥

मल निकलनेके लिये गुदमें घी चुपडकर रोगिके
अंगूठके सदृश मोटी और चिकनी वत्ती प्रवेश करे ।
इसको वैद्यरोग मलप्रवर्त्तिनी और फलवर्त्ती भी
कहते हैं ॥ २४२ ॥

इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां वस्त्यधिकार-
समाप्त ॥ ७९ ॥

अथ धूमपानाधिकारः ।

प्रायोगिकः कासहरश्च धूमो वैरेच-
नः स्त्रैहिकवामनीयौ । पञ्चप्रकारा
गदिताश्च धूमाः सिद्धान्तविद्भिर्मु-
निभिश्च वैद्यैः ॥ १ ॥

प्रायोगिक, कासहर, वैरेचन, स्त्रैहिक और वामनीय
इसप्रकार प्राचीन महर्षि और वैद्योंने धूमपानके पांच
भेद कहे हैं ॥ १ ॥

एलादिना कुष्ठनतोऽङ्गितेन क्षौमं
प्रलिप्यांगुलकाष्टमाना । प्रायोगिके-
वर्त्तिरियश्च नेत्रमष्टांगुलं षड्गुणितं
प्रशस्तम् ॥ २ ॥

कूठ और तगरको छोडकर एलादिवर्गकी औषधि-
योंको चारीक पीसकर कल्क बनावे । फिर एक बारह

अंगुलका नरसलका टुकड़ा लेकर उसपर उत्तम वस्त्र लपेटकर उस वस्त्रके ऊपर कल्कको आठ अंगुल परिमाण लेप करदेवे । पश्चात् नरसलका टुकड़ा निकालकर इस वस्त्रको अडतालीस अंगुलकी नलीमें रखकर धूमपान करे ॥ २ ॥

बृहत्पौ ऋषणं शृङ्गी सेंगुदीत्वङ्ग-
मनःशिला । एषा कासहरा वर्ति-
नेत्रं षोडशकांगुलम् ॥ ३ ॥

कटेरी, बडी कटेरी, त्रिकुटा, काकडासिंगी, हिगो-
टकी छाल और भैनशिल इनको उपर्युक्तरीतिसे वस्त्र
बनाकर सोलह अंगुलकी नलीमें रखकर पान करे ।
इसको कासहरधूम कहते हैं ॥ ३ ॥

शिरोविरेचनैर्वत्तिनेत्रं हस्तमितं म-
तम् ॥ ४ ॥

चिरचिटा, पीपल इत्यादि शिरोविरेचनऔपधियों-
के द्वारा वस्त्र बनाकर उसको चौबीस अंगुल लम्बी
नलीमें रखकर पान करे । इसको वैरेचन धूमपान
कहते हैं ॥ ४ ॥

स्निग्धसंज्ञैर्मधूच्छिष्टस्नेहगुग्गुलुसर्षपैः ।
स्नेहिको वर्तिरेभिस्तु नेत्रं द्वात्रिंशदं-
गुलम् ॥ ५ ॥

स्निग्धपदार्थ, मोम, स्नेह, गुग्गुल और सरसो
इत्यादि स्निग्धपदार्थोंकी वस्त्र बनाकर उसको वस्त्र
अंगुल लम्बी नलीमें रखकर पान करे । इसको
स्नेहिकधूमपान कहते हैं ॥ ५ ॥

वामनीये तु वल्लूरस्त्रायवस्थिखुरचर्म-
भिः । वर्तिर्दशांगुलं नेत्रं धूमः पञ्च-
विधो मतः ॥ ६ ॥

वल्लूर (सूखामांस), स्त्रायु, अस्थि, खुर और
चर्म इत्यादि वमनकारक पदार्थोंके द्वारा वस्त्र बना
कर उसको दश अंगुल लम्बी नलीमें रखकर पान
करे । इसको वामनीय धूमपान कहते हैं । इसप्रकार
धूमपानके ये पांच भेद जानने ॥ ६ ॥

अथ सुखोपविष्टः सुमना ऋज्वधो-
दृष्टिरतन्द्रितः । स्नेहाक्तां प्रदीप्तायां
वर्ति स्रोतसि प्रणिधाय धूमं पिबेत् ॥

प्रसन्नचित्त होकर मुखपूर्वक सीधा घैटाहुआ रंगी
दृष्टिको नीचा करके और आलस्यको छोड़कर साव-
धानताके साथ स्नेहसे भीजीहुई वस्त्रके अग्रभागमें
अग्नि लगाकर उसको नलीमें रखकर धूमपान करे ।

मुखेन तं पिबेत्पूर्वं नासिकायाः पु-
नः पिबेत् । मुखपीतं मुखेनैव वमे-
त्पीतञ्च नासया ॥ ७ ॥ यो वमेन्न-
स्ततो धूमं नस्तपीतं मुखेन वा ।
स नेत्रकर्णनासास्यसंश्रयान् लभते
गदान् ॥ ८ ॥

प्रथम मुखके द्वारा धूमपान करे पश्चात् नासि-
काके द्वारा धूमपान करे । मुखके द्वारा पान कियेहुए
धूमको मुखसे और नासिकाके द्वारा पान किये हुये
धूमको नासिकाके द्वारा निकाले । किन्तु जो मुखके
द्वारा पान किये हुए धूमको नासिकाके द्वारा निका-
लता है और नासिकाके द्वारा पान किये हुए धूमको
मुखके द्वारा निकालता है तो उसके कर्ण, नासिका
और मुखमें अनेकप्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं इस
लिए इसका विपरीत करना चाहिए ॥ ७ ॥ ८ ॥

तत्र प्रायोगिकं त्रींस्त्रीनुच्छ्वासा-
नाददीत मुखनासिकाभ्याश्च पर्या-
यांस्त्रीश्चतुरो वेति । मुखनासाभ्यां
पीतं स्नेहिकं यावदश्रुप्रवृत्तिरिति ।
नासिकया च पीतं वैरेचनिकमल्प-
दोषदर्शनात् । मुखेनैव कासान्तकरो
प्रासान्तरेषु च । वामनीयश्च मुखेनै-
व तिलतण्डुलकृतां यवागूं पीत्वा
वामनीयो यथायोगम् ।

प्रायोगिकधूमको मुख और नासिकाके द्वारा
तीन बार जोर जोरसे उवासको खींचकर पीवे । शेष
धूमको अपने बलानुसार तीन चार बार पीवे । स्ने-
हिकधूमको मुख और नासिकाके द्वारा तबतक पीवे
जबतक कि आंसू न निकलने लगे । वैरेचनिकधूमको
नासिकाके द्वारा तबतक पीवे जबतक कि दोष
निकलते रहें । कासहरधूमको मुखके द्वारा भोजनके
प्रासके बीचमें अथवा प्रासके अन्तमें पीवे । वामनीय

अंगुलका नरसलका टुकडा लेकर उसपर उत्तम वस्त्र लपेटकर उस वस्त्रके ऊपर कल्कको आठ अंगुल परिमाण लेप करदेवे । पश्चात् नरसलका टुकडा निकालकर इस वत्तीको अडतालीस अंगुलकी नलीमें रखकर धूमपान करे ॥ २ ॥

बृहत्यौ त्र्यूषणं शृङ्गी सेंगुदीत्वङ्ग-
मनःशिला । एषा कासहरा वर्ति-
नेत्रं षोडशकांगुलम् ॥ ३ ॥

कटेरी, बडी कटेरी, त्रिकुटा, काकडासिंगी, हिगो-
टकी छाल और भैरुशिल इनको उपर्युक्तरीतिसे वत्ती
बनाकर सोलह अंगुलकी नलीमें रखकर पान करे ।
इसको कासहरधूम कहते हैं ॥ ३ ॥

शिरोविरेचनैर्वत्तिनेत्रं हस्तमितं म-
त्तम् ॥ ४ ॥

चिरचिटा, पीपल इत्यादि शिरोविरेचनऔपधियों-
के द्वारा वत्ती बनाकर उसको चौबीस अंगुल लम्बी
नलीमें रखकर पान करे । इसको वैरेचन धूमपान
कहते हैं ॥ ४ ॥

स्निग्धसंज्ञैर्मधुच्छिष्टस्नेहगुग्गुलुसर्षपैः ।
स्नेहिको वर्तिरेभिस्तु नेत्रं द्वाविंशदं-
गुलम् ॥ ५ ॥

स्निग्धपदार्थ, मोम, स्नेह, गुग्गुलु और सरसों
इत्यादि स्निग्धपदार्थोंकी वत्ती बनाकर उसको वत्तीस
अंगुल लम्बी नलीमें रखकर पान करे । इसको
स्नेहिकधूमपान कहते हैं ॥ ५ ॥

वामनीये तु वल्लूरस्नायवस्थिखुरचर्म-
भिः । वर्तिर्दशांगुलं नेत्रं धूमः पञ्च-
विधो मतः ॥ ६ ॥

वल्लूर (सूखामांस), स्नायु, अस्थि, खुर और
चर्म इत्यादि वमनकारक पदार्थोंके द्वारा वत्ती बना
कर उसको दश अंगुल लम्बी नलीमें रखकर पान
करे । इसको वामनीय धूमपान कहते हैं । इसप्रकार
धूमपानके ये पांच भेद जानने ॥ ६ ॥

अथ सुखोपविष्टः सुमना ऋज्वधो-
दृष्टिरतन्द्रितः । स्नेहाक्तां प्रदीप्ताग्रां
वर्ति स्रोतसि प्रणिधाय धूमं पिबेत् ॥

प्रसन्नचित्त होकर सुखपूर्वक सीधा बैठहुआ रोगी
दृष्टिको नीचा करके और आलस्यको छोडकर साव-
धानताके साथ स्नेहसे भीजीहुई वत्तीके अप्रभागम
आग्नि लगाकर उसको नलीमें रखकर धूमपान करे ।

मुखेन तं पिबेत्पूर्वं नासिकायाः पु-
नः पिबेत् । मुखपीतं मुखेनैव वमे-
त्पीतञ्च नासया ॥ ७ ॥ यो वमेत्र-
स्ततो धूमं नस्तपीतं मुखेन वा ।
स नेत्रकर्णनासास्यसंश्रयान् लभते
गदान् ॥ ८ ॥

प्रथम मुखके द्वारा धूमपान करे पश्चात् नासि-
काके द्वारा धूमपान करे । मुखके द्वारा पान कियेहुए
धूमको मुखसे और नासिकाके द्वारा पान किये हुये
धूमको नासिकाके द्वारा निकाले । किन्तु जो मुखके
द्वारा पान किये हुए धूमको नासिकाके द्वारा निका-
लता है और नासिकाके द्वारा पान किये हुए धूमको
मुखके द्वारा निकालता है तो उसके कर्ण, नासिका
और मुखमें अनेकप्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं इस
लिए इसका विपरीत करना चाहिए ॥ ७ ॥ ८ ॥

तत्र प्रायोगिकं त्रींघ्नीनुच्छ्वासा-
नाददीत मुखनासिकाभ्याश्च पर्या-
यांघ्नीश्चतुरो वेति । मुखनासाभ्यां
पीतं स्नेहिकं यावदश्रुप्रवृत्तिरिति ।
नासिकया च पीतं वैरेचनिकमल्प-
दोषदर्शनात् । मुखेनैव कासान्तकरो
ग्रासान्तरेषु च । वामनीयश्च मुखेनै-
व तिलतण्डुलकृतां यवागूं पीत्वा
वामनीयो यथायोगम् ।

प्रायोगिकधूमको मुख और नासिकाके द्वारा
तीन बार जोर जोरसे स्वासको खींचकर पीवे । शेष
धूमोंको अपने बलानुसार तीन चार बार पीवे । स्ने-
हिकधूमको मुख और नासिकाके द्वारा तबतक पीवे
जबतक कि आंसू न निकलने लगे । वैरेचनिकधूमको
नासिकाके द्वारा तबतक पीवे जबतक कि दोष
निकलते रहें । कासहरधूमको मुखके द्वारा भोजनके
प्रासके बीचमें अथवा प्रासके अन्तमें पीवे । वामनीय

अंगुलका नरसलका टुकड़ा लेकर उसपर उत्तम वस्त्र लपेटकर उम वस्त्रके ऊपर कल्कको आठ अंगुल परिमाण लेप करदेवे । पश्चात् नरसलका टुकड़ा निकालकर इस वस्त्रको अड़तालीस अंगुलकी नलीमें रखकर धूमपान करे ॥ २ ॥

बृहत्यौ ऽयूषणं शृङ्गा सेंगुदीत्वङ्-
मनःशिला । एषा कासहरा वृत्ति-
नेत्रं षोडशकांगुलम् ॥ ३ ॥

कटेरी, बडी कटेरी, त्रिकुटा, काकडासिंगी, हिगोटकी छाल और भैनशिल इनको उपर्युक्तीतिसे वस्त्र बनाकर सोलह अंगुलकी नलीमें रखकर पान करे । इसको कासहरधूम कहते हैं ॥ ३ ॥

शिरोविरेचनैर्वत्तिनेत्रं हस्तमितं म-
तम् ॥ ४ ॥

चिरचिटा, पीपल इत्यादि शिरोविरेचनऔपधियोंके द्वारा वस्त्र बनाकर उसको चौबीस अंगुल लम्बी नलीमें रखकर पान करे । इसको वैरेचन धूमपान कहते हैं ॥ ४ ॥

स्निग्धसंज्ञैर्मधूच्छिष्टस्त्रेहगुगुलुसर्षपैः ।
स्नैहिको वृत्तिरेभिस्तु नेत्रं द्वात्रिंशद-
गुलम् ॥ ५ ॥

स्निग्धपदार्थ, मोम, स्त्रेह, गुगुल और सरसों इत्यादि स्निग्धपदार्थोंकी वस्त्र बनाकर उसको वत्तीस अंगुल लम्बी नलीमें रखकर पान करे । इसको स्नैहिकधूमपान कहते हैं ॥ ५ ॥

वामनीये तु वल्लूरस्नायवस्थिखुरचर्म-
भिः । वृत्तिर्दशांगुलं नेत्रं धूमः पञ्च-
विधो मतः ॥ ६ ॥

वल्लूर (सूखामांस), स्नायु, अस्थि, खुर और चर्म इत्यादि वमनकारक पदार्थोंके द्वारा वस्त्र बनाकर उसको दश अंगुल लम्बी नलीमें रखकर पान करे । इसको वामनीय धूमपान कहते हैं । इसप्रकार धूमपानके ये पांच भेद जानने ॥ ६ ॥

अथ सुखोपविष्टः सुमना ऋज्वधो-
दृष्टिरतन्द्रितः । स्नेहाक्तां प्रदीप्तां
वृत्तिं स्रोतसि प्रणिधाय धूमं पिबेत् ॥

प्रत्येकचित्त होकर सुखपूर्वक सीधा बैठहुआ रोगी दृष्टिको नीचा करके और आलस्यको छोड़कर सावधानताके साथ स्नेहमे भीजाहुई वस्त्रके अग्रभागमें अग्नि लगाकर उसको नलीमें रखकर धूमपान करे ।

मुखेन तं पिबेत्पूर्वं नासिकायाः पु-
नः पिबेत् । मुखपीतं मुखेनैव वमे-
त्पीतञ्च नासया ॥ ७ ॥ यो वमेन्न-
स्ततो धूमं नस्तपीतं मुखेन वा ।
स नेत्रकर्णनासास्यसंश्रयान् लभते
गदान् ॥ ८ ॥

प्रथम मुखके द्वारा धूमपान करे पश्चात् नासिकाके द्वारा धूमपान करे । मुखके द्वारा पान कियेहुए धूमको मुखसे और नासिकाके द्वारा पान किये हुये धूमको नासिकाके द्वारा निकाले । किन्तु जो मुखके द्वारा पान किये हुए धूमको नासिकाके द्वारा निकालता है और नासिकाके द्वारा पान किये हुए धूमको मुखके द्वारा निकालता है तो उसके कर्ण, नासिका और मुखमें अनेकप्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं इस लिए इसका विपरीत करना चाहिए ॥ ७ ॥ ८ ॥

तत्र प्रायोगिकं त्रींस्त्रीनुच्छ्वासा-
नाददीत मुखनासिकाभ्याश्च पर्या-
यांस्त्रीश्चतुरो वेति । मुखनासाभ्यां
पीतं स्नैहिकं यावदश्रुप्रवृत्तिरिति ।
नासिकया च पीतं वैरेचनिकमल्प-
दोषदर्शनात् । मुखेनैव कासान्तकरो
ग्रासान्तरेषु च । वामनीयश्च मुखेनै-
व तिलतण्डुलकृतां यवागूं पीत्वा
वामनीयो यथायोगम् ।

प्रायोगिकधूमको मुख और नासिकाके द्वारा तीन बार जोर जोरसे स्वासको खींचकर पीवे । शेष धूमको अपने बलानुसार तीन बार बार पीवे । स्नैहिकधूमको मुख और नासिकाके द्वारा तबतक पीवे जबतक कि आंसू न निकलने लगे । वैरेचनिकधूमको नासिकाके द्वारा तबतक पीवे जबतक कि दोष निकलते रहें । कासहरधूमको मुखके द्वारा भोजनके ग्रासके बीचमें अथवा ग्रासके अन्तमें पीवे । वामनीय

धूमको प्रथम तिल और चावलोंकी यवागू पान करके पश्चात् मुखके द्वारा यथाविधिसे पान करे ॥

हृत्कण्ठेन्द्रियसंशुद्धिर्लाघवं शिरसः शमः । यथेरितानां दोषाणां सम्यक् पीतस्य लक्षणम् ॥ ९ ॥

अच्छेप्रकारसे धूमपान करनेसे हृदय और इन्द्रियोमें शुद्धि, शिरमें हलकापन और उक्तदोषोंकी शांति ये लक्षण होते हैं ॥ ९ ॥

बाधिर्यमांध्यं मूकत्वं रक्तपित्तं शिरोध्रमम् । अकाले चातिपीतश्च धूमः कुय्यादुपद्रवान् ॥ १० ॥

विनासमय और अधिकतर धूमपान करनेसे बाधिरता, अंधता, मूकता, रक्तपित्त और शिरोध्रम इत्यादि रोगोंको उत्पन्न करती है ॥ १० ॥

तत्रेष्टं सर्पिषः पानं विरेको रक्तमोक्षणम् ॥ ११ ॥

इन विकारोंमें घृतपान, विरेचन और रक्तमोक्षण ये उपचार करे ॥ ११ ॥

तस्य योगातियोगौ विज्ञातव्यौ । तत्र योगे रोगोपशमनमिति । अतियोगे तालुशोषपरिदाहपिपासामदमूर्च्छार्कणक्ष्वेडदौर्बल्यमिति ।

धूमपानके योग और अतियोगोंको भी जानना उचित है । इसमें अच्छेप्रकारसे धूमपान करनेको योग कहते हैं और कुविधिसे पान करनेको अतियोग कहते हैं । योगसे धूमपान करनेपर सम्पूर्ण रोग शमन होते हैं और अतियोगसे तालुशोष, दाह, पिपासा, मद, मूर्च्छा, कर्णक्ष्वेड और दुर्बलतादि अनेक उपद्रव उत्पन्न होते हैं ॥

सैहिकं धूमकं दोषे वायौ पित्तानुगे यदि । शीतन्तु रक्तपित्ते स्याच्छ्लेष्मपित्ते विरूक्षणम् ॥ १२ ॥

सैहिकधूमपानके दूषित होनेसे यदि वायु पित्तके अनुकूल हो तो रक्तपित्तमें शीत और कफपित्तमें विरूक्षण क्रिया करे ॥ १२ ॥

धूमपाननिषेध ।

न विरिक्तः पिबेद्धूमं न कृते बस्तिकर्मणि । न रक्ते न विवे नोक्तो ना-

शक्तो न च गर्भिणी ॥ १३ ॥ न श्रमे न मदे नामे न पित्ते न प्रजागरे । न मूर्च्छाभ्रमतृष्णासु न क्षीणे नापि च क्षते ॥ १४ ॥

विरेचन करनेपर, बस्तिकर्म करनेपर, रुधिरके विकारोंमें, विषके विकारोंमें, असमर्थ, गर्भवती स्त्री, श्रम, मद, आम, पित्त, जागरण, मूर्च्छा, भ्रम, तृष्णा, क्षीण और क्षत इन सब रोगोंमें पान नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥ १४ ॥

न मद्यदुग्धे पित्वा च न स्नेहश्च न माक्षिकम् । धूमं न भुक्त्वा दध्ना च न रूक्षः कुद्ध एव च ॥ १५ ॥ न तालुशोषे तिमिरे शिरस्यभिहते न च । न शंखके न रोहिण्यां न रोगे च मदात्यये ॥ १६ ॥ एषु धूममकाले च मोहात्पिबति यो नरः । रोगास्तस्य प्रवर्द्धन्ते दारुणा धूमविभ्रमात् ॥ १७ ॥

एवं मद्यपान अथवा दूध पान करके स्नेह अथवा शहद सेवन करके अथवा दही सेवन करके किम्वा रूक्षशरीरवाला और क्रोधी मनुष्य इन सबको धूमपान त्याग देना चाहिये । तथा तालुशोष, तिमिर, शिरकी पीडा, शंखरोग, रोहिणी और मदात्यय इन रोगोंमें भी धूमपान नहीं करना चाहिये । जो मनुष्य उपर्युक्त विकारोंमें अथवा अकालसमयमें मोहसे धूमपान करता है, उसके धूमविभ्रमसे दारुणरोग उत्पन्न होते हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥

अन्यच्च ।

तत्र शोकश्रमभयामर्षाण्यविषरक्तपित्तमदमूर्च्छादाहपिपासा-पांडुरोगतालुशोषछर्दिमुर्धाभिघातोद्गारमेहोदराधमानोर्ध्ववातार्तबालवृद्धदुर्बलविरिक्तास्थापितजागरितगर्भिणी-रूक्षक्षतक्षीणपधुवृत्ताधिदुग्धमत्स्यमद्ययवागूपिताल्पकफाश्च धूमं न सेवेरन्निति ।

शोक, श्रम, भय, क्रोध, उष्णता, विपीव-
कार, रक्तपित्त, मद, मूर्छा, दाह, पियासा, पाण्डु
रोग, तालुशोष, वमन, शिरोभिघात, लद्दार,
प्रमेह, उदररोग, आध्मान और ऊर्ध्ववात इन
सब रोगोमे एवं बालक, वृद्ध, दुर्बल, जिसेने
विरेचन और आस्थापन वास्ति सेवन की हो,
जिसेने जागरण किया हो, तथा गर्भवती स्त्री,
रूक्षशरीरवाला, क्षत और क्षीण रोगी, जिसेने
शहद, घी, दही, दूध, मछली, मदिरा और यवागू
पान किये हों तथा जिसेके शरीरमे कफ बहुत
कम हो ऐसे रोगियोंको कदापि धूमपान नहीं
सेवन करना चाहिये ॥

गौरवं शिरसः शूलं पीनसार्द्धावभेद-
कौ । कर्णाक्षिशूलं कासश्च हिक्काश्वा-
सौ गलग्रहः ॥ १८ ॥ दन्तदोर्बल्य-
मास्त्रावः श्रोत्रघ्राणाक्षिदोषजः ।
पूतिस्रावश्च छर्दिश्च दन्तशूलमरोचकः
॥ १९ ॥ हनुमन्याग्रहः कण्डूः कृमया
मुखपाण्डुता । श्लेष्मप्रसेकौ वैस्वर्य्य
गलशुण्ड्युपजिह्विका ॥ २० ॥ खालि-
त्यं पिश्ररत्वश्च केशानां पतनं तथा ।
क्षवथुश्चातितन्द्रा च बुद्धेर्मोहोऽतिनि-
द्रता ॥ २१ ॥ धूमपानात्प्रशाम्यन्ति
बलं भवति चाधिकम् । शिरोरूहक-
पालानमिन्द्रियाणां रसस्य च ॥ २२ ॥

शिरका भारीपन, शिरका शूल, पीनस, अर्द्धाव-
भेदक, कर्णशूल, नेत्रशूल, खँसी, हिचकी, श्वास,
गलग्रह, दाँतोंकी दुर्बलता, दंतस्राव, कर्णस्राव,
नासिका स्राव, नेत्रस्राव, पूतिस्राव, वमन, दंतशूल
अरुचि, हनुस्तम्भ, मन्यास्तम्भ, कण्डू, कृमि,
मुखकी पाण्डुता, फकका स्राव, स्वरकी भंगता, गल-
शुण्डी, उपजिह्विका, खालित्य, बालोका पकना,
बालोंका गिरना, छीकना, अत्यन्त आलस्य, बुद्धिका
मोह और अत्यन्त निद्रा ये धूमपानको सेवन
करनेसे नष्ट होजाते हैं । अत्यन्त बलकी वृद्धि होती
है, तथा बाल, कपाल, इन्द्रियें और रस इनके भी
बलकी वृद्धि होती है ॥ १८-२२ ॥

न च वातकफात्मानो बलिनोऽप्यू-
र्ध्वजन्तुजाः । धूमारक्तकपालस्य व्या-
धयः स्युः शिरोरोगताः ॥ २३ ॥

धूमपान करनेसे जिस मनुष्यका कपाल आच्छा-
दित होगया है ऐसे मनुष्यकी वात और कफकी प्रकृ-
ति होनेपर एव. उसके बलवान होनेपर ऊर्ध्वजन्तु
रोग आरं शिरोरोग उत्पन्न नहीं होते हैं ।

धूमप्रयोगात्पुरुषः प्रसन्नेन्द्रियवाङ्-
मनाः । दृढकेशद्विजश्मश्रुः प्रसन्नवि-
शदाननः ॥ २४ ॥

धुयेंको विधिपूर्वक सेवन करनेसे सम्पूर्ण इन्द्रियें,
वाणी और मन प्रसन्न होते हैं । केश, दन्त, दाढी
और मूछये दृढ होजाते हैं और मुखकमल प्रफुलि-
ते होता है ॥ २४ ॥

धूमपानका काल ।

प्रयोगपाने तस्याष्टौ कालाः सम्परि-
कीर्त्तिताः । स्नात्वा भुक्त्वा समुल्लि-
ख्य क्षुत्त्वा दन्तान्निवृष्य च ॥ २५ ॥
नावनाञ्जननिद्रान्ते चात्मवान्धूमपो
भवेत् । वातश्लेष्मसमुत्केशः काले-
ष्वेषु हि लक्ष्यते ॥ २६ ॥

प्रयोगनामक धूमपानके आठ समय कहे हैं ।
स्नान करनेके पश्चात्, भोजन करनेके पश्चात्, जिह्वा
आदिको घिसनेके पश्चात्, छींघ लेनेके पश्चात्, दाँतों-
को घिसनेके पश्चात्, नस्यकर्म, अञ्जन और निद्राके
अन्तमे बुद्धिमान् मनुष्य धूमपान करे । क्योकि
वात कफका उत्क्लेश इन ही समयोमे होता है
॥ २५ ॥ २६ ॥

अंगुष्ठपरिणाहेन मध्ये स्थूलोऽन्तयो-
स्तनुः । षड्भागो धूमनेत्रस्य वर्त्या
मानं प्रशस्यते ॥ २७ ॥

अंगूठेके समान विस्तृत मध्यमे स्थूल और अन्तमें
पतली धूमकी नलीका परिमाण, वक्तिके मानसे ठठा
भाग होना चाहिए ॥ २७ ॥

ऋजुत्रिकोणकलितकोलास्थ्यप्रमा-
णितम् । बस्तिनेत्रसमद्रव्यं धूमनेत्रं
प्रशस्यते ॥ २८ ॥

सीधा,तीन सन्धियाले और बेरकी गुठलीके अग्र-
भागके समान तथा वस्तिके नेत्रके समान द्रव्य-
वाला ऐसा धूमपान करनेका नेत्र उत्तम होता
है ॥ २८ ॥

शरावसंपुटयुतं व्रणधूमं नयेद्ग्रणे ।
धूमनेत्रेण मतिमान् वेदनास्त्रावशा-
न्त्ये ॥ २९ ॥

जो व्रणमें धुआँ देना हो तो अंगारसे सुलगाय
हुए कल्कको शरावसम्पुटमें रखकर ऊपरके शराव-
में छिद्र करके उसमें नली लगाकर उससे व्रणको
धूनी देवे इससे व्रणकी वेदना और स्त्राव शांत होता
है ॥ २९ ॥

इति श्री बंगसेने भाषाटीकाया धूमपाना-
धिकार समाप्त ॥ ८० ॥

अथ कवलाधिकार ।

चतुर्द्धा कवलः स्नेही प्रसादी शो-
धिरोपणौ । स्निग्धोष्णः स्नेहिको वा-
ते स्वादुशीतैः प्रसादनः ॥ १ ॥ पि-
त्ते कट्वम्ललवणै रूक्षैः संशोधनः
कफे । कषायतिक्तमधुरैः कटुकै रो-
पणो व्रणे ॥ २ ॥

अब कवलग्रहकी विधिको कहते हैं । स्नेही, प्रसा-
दी, शोधि और रोपण इनमेंसे कवल चार प्रका-
रका है । वातके विकारमें स्निग्ध और उष्णद्रव्योंके
द्वारा स्नेही कवल धारण करना चाहिये, पित्तके रोगों-
में मधुर और शीतल औषधियोंके द्वारा प्रसादीकवल
धारण करना चाहिये । कफके रोगोंमें कटु, अम्ल,
लवण और रूक्ष औषधियोंके द्वारा संशोधकवल
धारण करना चाहिये और व्रणके रोपण करनेमें क-
षैली, कडवी, मधुर और कटु औषधियोंके द्वारा रोप-
णकवल धारण करना चाहिये ॥ १ ॥ २ ॥

वचात्रिकटुकैश्चैव सिद्धार्थैः कल्कपे-
षितैः । तैलमूत्रसुरायुक्तैर्मधुनान्यत-
मेन च ॥ ३ ॥ सत्तैः स्विन्नमृदितः
स्निग्धभालकपोलकः । मुखे गृहीत्वा
कवलं मात्रयाऽनन्यमानसः ॥ ४ ॥

तिष्ठेद्यावन्मुखं पूर्णं स्त्रावश्च घ्राणच-
क्षुषोः । ततस्त्यक्त्वाऽपरो ग्राह्यो या-
वदाऽऽदोषसंक्षयः ॥ ५ ॥

बच, त्रिकुटा और सरसों इनका कल्क बनाकर
उसको तेल, गोमूत्र, मदिरा और शहद इनमेंसे एक
किसीके साथ मिलाकर कुछेक गरम करके मुखमें
धारण करे । इसको तबतक धारण करे जबतक कि
मस्तक और कपोलोपर पसीना न आजाय तथा वह
मृदु और स्निग्ध न होजाय । अथवा तबतक धारण
कर जबतक कि नासिकाके स्रोत और नेत्र जलसे प-
रिपूर्ण न होजायँ इसप्रकार होनेपर उस कवलको
निकालदेवे और फिर दूसरा कवल धारण करे । जब
तक अच्छे प्रकारसे संचित दोष न निकलजायँ तब-
तक धारण करे ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥

एवं स्नेहपयःक्षौद्रसमूत्राम्लसंयुताः ।
कषायोष्णोदकाभ्याश्च कवला दो-
षतो हिताः ॥ ६ ॥

इसप्रकार स्नेह, दूध, शहद, मांसरस, गोमूत्र और
काँजी इनके द्वारा काथ और उष्णजलके साथ,
अथवा जो दोषोंमें हितकारी है उनके द्वारा कवलों
को धारण करे ॥ ६ ॥

मुखं संचार्यते या तु सा मात्रा क-
वले स्मृता । असंचार्या तु सा मा-
त्रा गण्डूषे सा प्रकीर्तिता ॥ ७ ॥

जो मुखमें अच्छे प्रकारसे विचरण करसकती है
उस मात्राको कवल कहते हैं और जो मात्रा मुखमें
संचार नहीं करसकती उसको गण्डूष कहते हैं ॥ ७ ॥

तावद्धारयितव्योऽनन्यमनसाऽनुन्न-
तदेहेन यावदोषपरिपूर्णकपोलत्वं ना-
सास्त्रातो नयनपरिप्लवश्च भवति त-
दा विमोक्तव्यः । पुनश्चान्यो ग्रीही-
तव्य आशुद्धिलिङ्गमिति ।

अब सुश्रुतसे कवल धारणकी विधि कहते हैं ।
रोगीको उचित है कि एकाग्रचित्त होकर और शरीर
को उन्नत करके तबतक कवलको धारण करे जबत-
क कपोल नासिकाके छिद्र और नेत्र दोषोंके जलसे
परिपूर्ण न होजाय, जब ऐसा होजायँ तब उसको

थूककर शीघ्र ही दूसरा कवल धारण करे। जबतक कि, अशुद्धताके लक्षण दीखते रहे तबतक बराबर इसीप्रकार कवल धारण करे।

कवलशुद्धिके लक्षण ।

व्याधेरपचयस्तुष्टिवैशद्यं वक्रलाघ-
वम् । इन्द्रियाणां प्रसादश्च कवले
शुद्धिलक्षणम् ॥ ८ ॥

रोगका दूर होना, निर्मलता, मुखमें हलकापन और इन्द्रियोंमें प्रसन्नता ये कवलशुद्धिके लक्षण जानने ॥ ८ ॥

अशुद्धकवलेके लक्षण ।

हीने जाड्यकफोत्केशावरसज्ञानमे-
वच । अतियांगे मुखे पाकः शो-
षस्तृणारुचिः क्लमः ॥ ९ ॥

हीनकवल धारणमें जडता, कफका उत्कलेश और रसका ज्ञान नष्ट होना ये सब लक्षण होते हैं और अत्यंत कवल धारणमें मुखपाक, शोष, तृणा, अरुचि और क्लम ये सब लक्षण होते हैं ॥ ९ ॥

शोधनीये विश्लेषेण भवत्येतत्तु ल-
क्षणम् ॥ १० ॥

शोधनीयकवलमें भी प्रायः येही सब लक्षण होते हैं ॥ १० ॥

तिला नीलोत्पलं सर्पिः शर्कराक्षीर-
मेव च । सक्षौद्रो दग्धवक्रस्य गण्डू-
षो दाहनाशनः ॥ ११ ॥

तिल, नीलकमल, घृत, मिश्री, दूध और शहद इनका गण्डूष बनाकर धारण करनेसे जले हुए मुखकी दाह नष्ट होती है ॥ ११ ॥

कवलस्य विधिह्येष समासेन प्रकी-
र्तितः । विभव्य भेषजं बुद्ध्या कुर्वीत
प्रतिसारणम् ॥ १२ ॥

यह कवलकी विधि संक्षेपसे कही है। अब प्रतिसारणकी विधि कहते हैं। वैद्यको चाहिये कि यथा-
दोषानुसार औषधियों द्वारा विवेचना करके प्रतिसारण करे ॥ १२ ॥

कल्को रसक्रिया क्षौद्रं चूर्णं चेति च-
तुर्विधम् । अंगुल्यग्रपणीतं तु यथा-
स्वं मुखरोगिषु ॥ १३ ॥

कल्क, रसक्रिया, शहद और चूर्ण इन चार द्रव्योंसे प्रतिसारण होता है। मुखरोगमें यथादोषानुसार अंगुलीके अग्रभागसे प्रतिसारण करे ॥ १३ ॥

तस्य योगातियोगश्च कवलोक्तं वि-
भावयेत् । तानेव शमयेद्व्याधीन
कवलोऽय प्रयोजिनः ॥ १४ ॥

इसके भी योग और अतियोगके लक्षण कवलेके समान होते हैं। जो रोग कवलको धारण करनेसे नष्ट होते हैं वेही रोग प्रतिसारण करनेसे भी नष्ट होते हैं ॥ १४ ॥

दोषघ्नमनभिष्यन्दि भोजयेच्च तथा
नरम् ॥ १५ ॥

इसपर दोषनाशक और अभिष्य दतारहित ऐसा भोजन रोगीको सेवन करावे ॥ १५ ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां कवलाधिकार
समाप्त ॥ ८१ ॥

अथ नस्याधिकार ।

प्रतिमर्शोऽवपीडश्च नस्यं प्रथमनं
तथा । शिरोविरेचनं पञ्च नस्यभेदाः
प्रकीर्त्तिताः ॥ १ ॥

प्रतिमर्श, अवपीडन, नस्य, प्रथमन और शिरोविरेचन इन भेदोंसे नस्य पांच प्रकारका है। अर्थात् नस्यके ये पांच भेद हैं ॥ १ ॥

द्वारं हि शिरसो नासा तेन तद्व्या-
प्य हन्ति तान् ॥ २ ॥

शिरका द्वार नासिका है इसलिये नासिकासे वि-
याहुआ नस्य नासिकामें व्याप्त होकर शिरके रागा-
को नष्ट करता है। इसकारण इसको नस्य कहते हैं ॥ २ ॥

औषधमौषधपक्वो वा स्नेहो नासिका-
भ्यां दीयत इति नस्यम् ।

औषधियोंके द्वारा सिद्ध की हुई औषध अथवा केवल औषधि या औषधियोंके द्वारा पकायाहुआस्नेह जो नासिकाके द्वारा दियाजाता है अर्थात् सुँघाया जाता है, उसको नस्य कहते हैं ॥

नस्यं तद्विविधं शिरोविरेचनं स्नेहनञ्च
तद्विविधमपि पञ्चधा । तद्यथा-प्रति-
मर्शो विरेचनविकल्पोऽवपीडः प्रध-
मन चेति ।

नस्य-शिरोविरेचन और स्नेहन इन भेदोंसे दो-प्रकारका है और दोप्रकारके भी प्रतिमर्श, विरेचन, विकल्प अवपीडन और प्रधमन ये पाच भेद हैं ।

ये तु वातात्मका रोगाः शिरः-
कम्पादितादयः । शिरसस्तर्पणं
तेषु नस्यकर्म प्रशस्यते ॥ ३ ॥

शिरःकम्प और अर्दितादि जो वातजनितरोग हैं उनमें शिरस्तर्पण (स्नेहन) नस्य हितकारी है ॥३॥

स्तम्भसुप्तिगुरुत्वाद्याः श्लैष्मिका ये
शिरोगदाः । शिरोविरेचनं तेषु
नस्यकर्म प्रशस्यते ॥ ४ ॥

जडता, सुन्नी और भारीपन आदि जो कफजनित शिरके रोग हैं, उनमें शिरोविरेचन नस्य अतीवहितकारी है ॥ ४ ॥

शर्करेशुरसक्षीरघृतमांसरसान् पृथक् ।
क्षीणानां नस्यतो दद्याद्रक्तपित्तगदेषु
च ॥ ५ ॥

शर्करा, ईखका रस, दूध, घी और मांसरस इन-मेंसे एक किसी द्रव्यका क्षीणमनुष्योको और रक्त-पित्तरोगीको नस्य देवे ॥ ५ ॥

वातपैत्तिकेषु रोगेषु वातपित्तहरद्रव्य-
सिद्धेन स्नेहेनेति ।

वातपैत्तिकरोगमें वातपित्तनाशक औषधिके द्वारा स्नेहको सिद्ध करके नस्य देवे ।

यथा दोषोदये काले रोगिणो नावनं
भिषक् । शरद्वसन्तयोः स्वस्थे पूर्वाह्ने

सम्प्रयोजयेत् ॥ वर्षासु शिशिरे
श्रीष्मे सायं मध्यन्दिनेऽथवा ॥ ६ ॥

वैद्य यथादोषानुसार यथासमयमें रोगीको नस्य देवे । स्वस्थमनुष्यको शरद्व और वसन्त ऋतुमें पूजाहक समय नस्य देवे । वर्षा, शिशिर और श्रीष्म ऋतुमें संध्याके समय अथवा मध्याह्नके समय नस्य देवे ॥ ६ ॥

भुक्तवानपतर्पितोऽत्यर्थतरुणप्रति-
श्यायी गर्भिणी स्नेहोदकमद्यद्रवपी-
तोऽजीर्णी दत्तवस्तिः क्रुद्धो गरान्त-
स्तृषाभिभूतो बालो वृद्धः श्रान्तो वे-
गावरोधितः शिरःस्नातः स्नातु-
कामश्च न नस्यकम्मार्ह इति ।

जो भोजन करचुका हो, जिसने लंघन किये हों, जिसके नया प्रतिश्याय हुआ हो, गर्भवती स्त्री, तथा जिसने स्नेह, जल, मदिरा और पतले पदार्थ पान किये हों, अजीर्णरोगी, जिसको वस्ति दी गई हो, क्रोधित, विषसे पीड़ित, तृषासे व्याकुल, बालक, वृद्ध, थका हुआ जिसने मल और मूत्रादिका वेग रोका हो, जिसने शिरसे स्नान किया हो और जो स्नान करने-की इच्छा करता हो ऐसे मनुष्यको नस्य नहीं देवे ॥

तस्य स्नेहननस्यस्य प्रमाणमष्टौ
बिन्दवः । प्रदेशिनी पर्वद्वयानिःसृता
प्रथममात्रा द्वितीया शुक्तिस्तृतीया
पाणिशुक्तिरित्येतास्तिस्त्रो मात्रा य-
थाबलं प्रयोज्याः ।

नस्यके स्नेहकी मात्रा आठ बिन्दु परिमाण है तर्जनी अंगुलीके दो पौरुखोंसे निकलीहुई प्रथम मात्रा है । दूसरी मात्रा एक शुक्तिकी है और तीसरी मात्रा पाणिशुक्तिकी है । इसप्रकार ये तीन मात्राये बलानु-सार प्रयोग करनी चाहिये ।

तत्रोद्भिन्नवातमूत्रपुरीषाय भुक्तवते
व्यभ्रे काले पाणितापोपस्वेदि-
तगलकपोलललाटप्रदेशाय वातात-
परजोहीनिवेशमन्युत्तानशायिने प्रसा-

रितकरचरणाय किञ्चित्प्रलम्बित-
शिरसे वज्राच्छादितनयनाय वाम-
हस्तप्रदेशिन्यग्रोत्रामितनासाग्राय
विशुद्धस्रोतसि दक्षिणहस्तेन स्नेह-
मुष्णानुतप्तं रजतसुवर्णताम्र-मृत्पात्र-
शुक्तीनामन्यतमस्थं शुक्त्या पिचुना
वा सुखोष्णमद्रुतं विच्छिन्नधारया
सिञ्चेत् । यथा नेत्रे न प्राप्नोति तथा
प्रयतेतेति ।

वायु, मूत्र और मलकी बाधासे निवृत्त होकर
भोजनके पचजानेपर जिस समय आकाशमण्डल
स्वच्छ होरहा हो ऐसे समय रोगीके हाथोंको तपा
तपाकर उनकी गरमीसे उसके गले, कपोल और लला-
टको स्वेदित करके, पवन, धूप और धूलरहित ऐसे
घरमें उसको सीधा चित्त शयन कराकर और उसके
हाथ पावोंको फैलाकर शिरको कुछ ऊँचा करके
नेत्रोंको वस्त्रसे ढककर बाये हाथकी तर्जनी अंगुलीसे
नासिकाके अग्रभागको ऊपरको उठाकर उसके
शुद्ध स्रोतोंमें दहिने हाथसे चाँदी, सोना, ताँबा,
मिट्टीके पात्र, सीप तथा अन्यान्य किसी
पात्रमें रखकर गरम किये हुए सुहाते सुहाते
स्नेहको सीपके द्वारा अथवा फायेके द्वारा
धीरे २ धारको तोड़ तोड़ करके नस्य द्वारा प्रयोग
करे । किन्तु औषध नेत्रमें न पहुँचे, इसका विशेष
रूपसे यत्न करे ।

स्नेहेन सिञ्चति शिरो न कथञ्चन क-
म्पयेत् । न भाषेत् न कुप्येत न ब्रूया-
न्न हसेत्तथा ॥ ७ ॥

स्नेहसे नस्य देते समय रोगी शिरको कदापि नहीं
कंपावे, तथा बोले नही, न कुपित हो और न
हँसे ॥ ७ ॥

एवं हि विहितः स्नेहो नैवान्तः प्रति-
पद्यते । ततः कासप्रतिश्यायशिरो-
क्षिगदसम्भवः ॥ ८ ॥

क्योंकि शिरको कंपाने आदिसे विचलित हुआ
स्नेह भीतरतक नहीं जाता है और खाँसी, प्रतिश्याय,
शिर और नेत्ररोग उत्पन्न होजाते हैं ॥ ८ ॥

शृङ्गाटकमभिप्लाव्य स्थापयेन्न गिले-
द्रवम् । पञ्चसप्तदशैव स्युर्मात्रा नस्य-
विधारणे ॥ ९ ॥

स्नेहको शृङ्गाटक अर्थात् कपालकी हठीतक पहुँचा
कर स्थिर रखे जिससे द्रव निकल नहीं जाय और
कोई यहाँ ऐसा अर्थ करते हैं कि द्रवको निगले नहीं।
इसप्रकार पाँच, सात अथवा दश गुरु अक्षरोंका जब
तक उच्चारण हो तबतक नस्यको धारण करे ॥ ९ ॥

उपविश्याथ निष्ठीवेन्नासावक्रान्तगं
द्रवम् । वामदक्षिणपार्श्वभ्यां निष्ठी-
वेत्संमुखं न हि ॥ १० ॥

फिर बैठकर नासिकासे मुखमें गयेहुए द्रवको बाई
या दहिनी ओर थूक देवे, किन्तु सन्मुख नहीं
थूके ॥ १० ॥

ललाटस्वेदनं कुर्याद्यादि नो बहिरा-
व्रजेत् ॥ ११ ॥

जो दियाहुआ नस्य यदि बाहर नहीं आवे तो
मस्तकको स्वेदित करे ॥ ११ ॥

नीति नस्ये मनस्तापं रजःक्रोधादिकं
त्यजेत् । शयीत निद्रां त्यक्त्वा च
प्रोक्तानो वाक्शतं नरः ॥ १२ ॥

नस्यके लेनेपर मनमें संताप, धूल और क्रोधादिकको
त्यागदेवे और सौ गुरु अक्षरोंक उच्चारण पर्यंत निद्रा
नहीं लेवे फिर चित्त होकर शयन करे ॥ १२ ॥

तथा वैरेचनस्यान्ते धूमो वा कवलो
हितः । व्यवभुक्तवते नस्यं कर-
स्विन्नाय दापयेत् ॥ १३ ॥

वैरेचन नस्यके अंतमें धूमपान करे अथवा कवलको
धारण करे । तथा विनाभाजन किये और हाथोंको
स्वेदित करके नस्य देना चाहिये ॥ १३ ॥

स्नेहस्य बिन्दवो ह्यष्टौ प्रदेयां नस्य-
कर्मणि । शुक्तिश्च पाणिशुक्तिश्च ति-
स्रो मात्राः प्रकीर्त्तिताः ॥ १४ ॥ द्वा-
विंशद्विन्दवश्चापि शुक्तिरित्यभिधी-
यते । द्वे शुक्ती पाणिशुक्तिश्च शेषा तु
कुशलैर्नरैः ॥ १५ ॥

नस्यकर्ममे स्नेहकी आठ वूँदें डालनी चाहिये । इसप्रकारके नस्यकी अष्टविन्दु, शुक्ति और पाणि-शुक्ति ये तीन मात्रा जाननी । बत्तीस विन्दुओंकी एक शुक्ति होती है और दो शुक्तिकी एक पाणिशुक्ति होती है ॥ १४ ॥ १५ ॥

चत्वारो विन्दवः षड् वा तथाष्टौ वा यथाबलम् । शिरोविरेचने योज्या ऊर्ध्वजत्रुविकारिणाम् ॥ १६ ॥

शिरोविरेचनमे ऊर्ध्वजत्रुरोगियोंको औपधिकी चार विन्दु, छः विन्दु अथवा आठ विन्दु यथाबलानुसार देने चाहिये ॥ १६ ॥

शिरोऽभिघाते त्वरुचौ स्वरभङ्गे गलप्रहे । कासे नासामयेऽपच्यां नस्यं देयं विरेचनम् ॥ १७ ॥

शिरोऽभिघात, अरुचि, स्वरभंग, गलप्रह, खॉ-सी, नासारोग और अपची इनमे विरेचननस्य देना चाहिये ॥ १७ ॥

शिरीषशिशुसिन्धूत्थरुचकऽयूषणा-दयः । हिंवाद्वैकरसश्चैव प्रयोज्या नस्यकर्मणि ॥ १८ ॥

शिरस, सहिजना, सैधानमक, कालानमक, त्रिकुटा, हींग और अदरसका रस इन सबको विरेचननस्यमें प्रयोग करे ॥ १८ ॥

शुद्धनस्यके लक्षण ।

लाघवं शिरसो योगे सुखस्वप्नावबोधनम् । विकारोपशमः शुद्धिरिन्द्रियाणां मनः सुखम् ॥ १९ ॥

शिरमें हलकापन, सुखपूर्वक निद्राका आना, विकारोंका शमन होना और इन्द्रियों तथा मनमें प्रसन्नता होना ये अच्छेप्रकारसे दिये हुये नस्यके लक्षण जानने ॥ १९ ॥

अन्यच्च ।

लाघवं शिरसः शुद्धिः स्रोतसां व्याधिसंक्षयः । चित्तेन्द्रियप्रसादश्च शिरसः शुद्धिलक्षणम् ॥ २० ॥

शिरमें हलकापन, शरीरके स्रोतोंका शुद्ध होना, रोगोंका नाश, चित्त और इन्द्रियोंमें प्रसन्नताका

होना ये सम्यक् प्रकारसे दिये हुये नस्यके द्वारा शिरकी शुद्धिके लक्षण है ॥ २० ॥

हीनशुद्धिके लक्षण ।

कण्डूप्रदेहौ गुरुता स्रोतसां कफसंश्रवः । हीने विशुद्धे शिरसि लक्षणं सम्प्रकीर्तितम् ॥ २१ ॥

शरीरमे खुजलीका होना, शरीर लिसासा रहना, भारीपन और नासिकादिस्त्रोतोंसे कफका गिरना ये हीननस्यके लक्षण जानने ॥ २१ ॥

अतिशुद्धिके लक्षण ।

मस्तुलुङ्गागमो वातदुष्टिरिन्द्रियविभ्रमः । शून्यता शिरसश्चापि मूर्ध्नि गाढं विरेचिते ॥ २२ ॥ हीने विशुद्धे शिरसि कफवातघ्नमाचरेत् । सम्यङ्नियोजिते वापि सर्पिर्नस्ये नियोजयन्त ॥ २३ ॥

नासिकासे मस्तिष्काभ्यन्तरके समान चिकनाईका निकलना, वायुका दुष्ट होना, इंद्रियोंमें भ्रम होना और शिरमें खालीपन, मस्तकमें गाढामल ये अत्यन्त नस्य हुयेके लक्षण जानने । हीननस्यके होनेपर कफवातनाशक विधि करे और अच्छेप्रकारसे नस्यके होनेपर घृतका नस्य देवे ॥ २२ ॥ २३ ॥

प्रतिमर्शस्तु चतुर्दशसु कालेषूपादेयो भवति । तद्यथा-तल्पोत्थितन प्रक्षालितमुखेन गृहान्निर्गच्छता व्यववायव्यायामाध्वपरिश्रान्तेन मूत्रोच्चारकवलाञ्जनान्ते भुक्तवता छदितवता दिवास्वप्नोत्थितेन सायं चेति ।

प्रतिमर्श देनेके चौदह समय होते हैं । जैसे शय्यासे उठनेपर, मुखके धोनेपर, घरसे बाहर जातेसमय, व्यववाय (मैथुन), व्यायाम (परिश्रम) और मार्गके चलनेसे थकनेपर, मूत्र और मलकी बाधासे निवृत्त होनेपर, कवलधारण करने और अंजन लगानेके पश्चात्, भोजन करनेपर, वसन करनेपर, दिनभे सोकर उठनेपर और संध्याके समय प्रतिमर्श नस्य प्रयोग करना चाहिये ।

ईषदुत्सिञ्चितः स्नेहो यदा वक्रं प्रप-
द्यते । नस्ये निषिक्तं तं विद्यात्प्रति-
मर्शं प्रमाणतः ॥ २४ ॥

जब कुछ ऊपरको उभरा हुआ स्नेह मुखमें
आने लगता है तब प्रतिमर्शका प्रमाण
जानना ॥ २४ ॥

उत्सिञ्चन्न पिबेत् स्नेहं निष्ठीविन्मु-
खमागतम् ।

उभरेहुये स्नेहको पान नहीं करे और मुखमें आये
हुये स्नेहको थूकेदेव ।

क्षीणे तृष्णास्यशोषार्त्ते बाले वृद्धे
च युज्यते ॥ २५ ॥ तेन रोगाः प्रशा-
म्यन्ति नराणामूर्ध्वजत्रुजाः । इन्द्रि-
याणाञ्च वैमल्यं कुर्यादास्यं सुगंधि-
च ॥ २६ ॥ हनुदन्तशिरोप्रीवात्रि-
कबाहूरसां बलम् । वलीपलितखा-
लित्यव्यङ्गानां चाप्यसम्भवः ॥ २७ ॥

क्षीण, तृपासे पीडित, मुखशोष, बालक और वृद्ध
इन सबको यह नस्य प्रयोग करना चाहिये । इससे
मनुष्योंके ऊर्ध्वजत्रुगत रोग नष्ट होजातेहैं, तथा इन्द्रि-
योंमें निर्मलता और मुखमें सुगंध उत्पन्न होती है ।
तथा हनु, दंत, शिर, ग्रीवा, त्रिक, बाहू और हृदयमें
बल उत्पन्न होता है । वली, पलित, खालित्य और
व्यंग ये सब नष्ट होजाते हैं ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥

तैलं कफे सवाते च केवले पवने व-
साम् । दद्यान्नस्यः सदा पित्ते सर्पि-
र्मज्जानमेव च ॥ २८ ॥

कफवायुके विकारोंमें तैल प्रयोग करना चाहिये।
केवल वायुके विकारोंमें वसा प्रयोग करनी चाहिये।
और पित्तके विकारोंमें सदेव घृत और मज्जाके द्वारा
नस्य देना चाहिये ॥ २८ ॥

चतुर्विधस्य स्नेहस्य विधिरेष प्रकी-
र्तितः । श्लेष्मस्थानां विरोधित्वात्तेषु
तैलं प्रशस्यते ॥ २९ ॥

चारों प्रकारके स्नेहोंकी यह विधि कही है ।
कफके स्थानोंका विरोधि होनेसे इसमें तैल हितकारी
कहा है ॥ २९ ॥

अवपीडः प्रधमन द्वौ भेदावपरौ स्मृ-
तौ । शिरोविरेचनस्यात्र तौ तु देयौ
यथायथम् ॥ ३० ॥

रेचननस्यके अवपीडन और प्रधमन ये दो भेद
हैं । यदि शिरोविरेचन देना हो तो यथोक्तविधिसं-
दोनोंको प्रयोग करना चाहिये ॥ ३० ॥

कल्कीकृतादौषधायः पीडितो निः-
सृतो रसः । अवपीडः स निर्दिष्टस्ती-
क्ष्णद्रव्यसमुद्भवः ॥ ३१ ॥

जिसके साथ तीक्ष्ण पदार्थ मिले हो ऐसी औषधि-
का कल्क बनाकर उसको निचोड़ कर जो रस निकाला-
जाता है, उसको अवपीडन कहते हैं ॥ ३१ ॥

षडंगुला द्विवक्रा या नाडी चूर्णं त-
या धमेत् । तीक्ष्णं कोलमितं वक्त्रवा-
तैः प्रधमनं हितम् ॥ ३२ ॥

छः अंगुली दो मुखवाली नलोंमें एक तोलाभर
तीक्ष्ण चूर्ण भरकर उसको मुखसे फूँककर जो नाकमें
चढादेवे तो इसको प्रधमन कहते हैं ॥ ३२ ॥

ऊर्ध्वजत्रुगते रोगे कफजे स्वरसंक्षये ।
अरोचके प्रतिश्याये शिरःशूले च
पीनसे ॥ शोफापस्मारकुष्ठेषु नस्यं
वैरेचनं हितम् ॥ ३३ ॥

ऊर्ध्वजत्रुगत रोग, कफज रोग, स्वरभंग, अरुचि,
प्रतिश्याय, शिरःशूल, पीनस, शोफ, अपस्मार और
कोढ़ इन सब रोगोंमें वैरेचननस्य हितकारी है ३३ ॥

भीरुस्त्रीकृशबालानां नस्यं स्नेहन-
मिष्यते ॥ ३४ ॥ गलरोगे सन्निपाते
निद्रायां विषमज्वरे । मनोविकारे
कृमिषु युज्यते चावपीडनम् ॥ ३५ ॥

डरपोक, स्त्री, कृश और बालकोंको स्नेहनस्य
हितकारी है । गलरोग, सन्निपात, निद्रा, विषमज्वर,
मानसिकरोग और कृमिरोग इन सब रोगोंमें अवपीडन
उन नस्य हितकारी है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

अत्यन्तोत्कटदोषेषु विसंज्ञेषु च दी-
यते । चूर्णं प्रथमं धीरैस्तद्धि ती-
क्ष्णतरं यतः ॥ ३६ ॥

अत्यंत उत्कट दोषोंमें और संज्ञाके नष्ट होनेपर
अत्यंत तीक्ष्ण होनेके कारण विद्वान् वैद्य प्रथम
चूर्णको नस्यमें प्रयोग करते हैं ॥ ३६ ॥

नस्यं स्याद्गुडशुण्ठीभ्यां पिप्पल्या
सैन्धवेन वा । जलपिष्टेन तेनाक्षिक-
र्णनासाशिरोगदाः । मन्याहनुगलो-
द्धृता नश्यन्ति भुजपृष्ठगाः ॥ ३७ ॥

गुड, सोंठ, पीपल और सैधानमक इन सबको एक-
त्र जलमें पीसकर नस्य देनेसे--नेत्र, कर्ण, नासिका
और गिरके समस्त रोग नष्ट होते हैं । तथा मन्या-
नाडी, हनु, गल, भुजा और पृष्ठगत समस्तरोग
शीघ्र दूर होते हैं ॥ ३७ ॥

मधूकनारकृष्णाभ्यां वचामरिचसैन्ध-
वैः । नस्यं कोष्णजलैः पिष्टं दद्यात्
संज्ञाप्रबोधनम् ॥ ३८ ॥

महुवेका सार, पीपल, वच, काली मिरच और
सैधानमक इन सबको एकत्र गरम जलमें पीसकर
नस्य देनेसे चेतना उत्पन्न होती है ॥ ३८ ॥

रोहितमत्स्यपित्तेन भावितं मरिचं
वचाः । कट्फलं चेति तच्चूर्ण देयं प्र-
थमं बुधैः ॥ ३९ ॥

बुद्धिमान् वैद्य काली मिरच और वचके चूर्णको
रोहूमछलीक पित्तमें भावना देकर और कायफलका
चूर्ण मिलाकर उसको प्रथमनस्यमें व्यवहार करे
॥ ३९ ॥

इति श्रीवंगसेन भाषाटीकायां, नस्याधिकार
समाप्त ॥ ८२ ॥

अथ स्वस्थवृत्ताधिकारः ।

उत्थायात्मवता ब्राह्म स्वस्थेनारो-
ग्यमिच्छता । धीमता यदनुष्ठेयं त-
त्सर्वं सम्प्रवक्ष्यते ॥ १ ॥

आरोग्यताको इच्छा करनेवाले, स्वस्थ शरीरवाले
और बुद्धिमान मनुष्यको ब्राह्म मुहूर्तमें उठकर मल
मूत्रादिकी बाधासे निवृत्त होकर जो कार्य करने
चाहिये उन सबको आगे वर्णन करते हैं ॥ १ ॥

प्रतिपदर्शषष्ठीषु नवम्येकादशीषु
च । दन्तानां काष्ठसंयोगो दहत्या-
सप्तमं कुलम् ॥ २ ॥

प्रतिपदा, अमावस्या, षष्ठी, नवमी और एकादशी
इन तिथियोंमें दंतों नही करना चाहिये ॥ २ ॥

कनिष्ठाग्रसमस्थूलमायतं द्वादशांगु-
लम् । प्रातरुत्थाय मतिमान् भक्ष्ये-
दन्तधावनम् ॥ ३ ॥

बुद्धिमान् मनुष्य कनिष्ठा अंगुलीके अग्रभागके
समान स्थूल और चारह अंगुल लम्बी दातोंको प्रति
दिन प्रातःकाल उठकर करे ॥ ३ ॥

करञ्जकरवरिकर्मालतीककुभाशनाः ।
खादिराम्रातकौ शुद्धौ सहका-
रकापित्थकौ ॥ ४ ॥ शस्यन्ते दन्तप-
वना ये चाप्येवंविधा द्रुमाः ॥ ५ ॥

करंज, कनेर, आक, मालती, अर्जुन, विजयसार,
खैर, अम्वाडा, आम और कैथ इन सब वृक्षोंकी दंतों
श्रेष्ठ होती हैं । तथा इन्हींके समान जो अन्यान्य वृक्ष
हैं उनकी भी दंतों करनी चाहिये ॥ ४ ॥ ५ ॥

आयुर्यशो बलं वर्णं प्रजापशुवसूनि
च । ब्रह्मप्रज्ञाञ्च मेधाञ्च त्वं नो देहि
वनस्पते ॥ इत्यादि श्रुतिवाक्येन
गृह्णीयात्सुवनस्पतिम् ॥ ६ ॥

(हे वनस्पते तुम हमारे लिये आयु, यश, बल,
वर्ण, सन्तान, पशु, धन, ब्रह्मज्ञान और सुबुद्धि प्रदान
करो) इस मंत्रको पढ़कर दंतोंके लिये वनस्पतीको
ग्रहण करे ॥ ६ ॥

द्वादशांगुलमाद्यानां क्षत्रियाणां द-
शांगुलम् । अष्टांगुलन्तु वैश्यानां शू-
द्राणां तु षडंगुलम् ॥ ७ ॥

ब्राह्मणोंके लिये चारह अंगुल लम्बी, क्षत्रियोंके
लिये दश अंगुल लम्बी, वैश्योंके लिये आठ अंगुल

लम्बी और शूद्रोके लिये छः अंगुल लम्बी दतौन लेनी चाहिये ॥ ७ ॥

दन्तकाष्ठन्तु नारीणां विधिवच्चतुरं-
गुलम् । तदग्रेण शनैर्दन्तान् घर्षये-
त्तानपीडयन् ॥ ८ ॥

स्त्रियोंको दतौन करनेकी लकड़ी चार अंगुलकी लेनी चाहिये । दतौनके अग्रभागसे धीरे धीरे दाँतों को घिसे, किन्तु मसूड़ोंको पीडित न करे ॥ ८ ॥

निहन्ति गन्धं वैरस्यं जिह्वादन्ता-
स्यजं मलम् । निरस्य शुचिमाधत्ते
सद्यो दन्तविशोधनम् ॥ ९ ॥

विधिपूर्वक नित्य प्रति दतौन करनेसे—मुखकी दुर्गंध, विरसता, जिह्वा, दाँत और मुखका मैल ये सब दूर होजाते हैं । मुखमें शुद्धता उत्पन्न होती है और तत्काल दाँत शुद्ध हात है ॥ ९ ॥

मुखवैरस्यवैगन्ध्यं शोषजाड्यापहं
मुखम् । दृढीकरश्च दन्तानां स्नेहगं-
हूषधारणम् ॥ १० ॥

स्नेहका गण्डूप धारण करनेसे मुखकी विरसता, दुर्गंध, शोष और जडता दूर होती है, यह दाँतोंको अतीव दृढ करता है ॥ १० ॥

विण्मूत्राखिलदोषधातुशमनाकांक्षा-
न्नपाने रुचिर्भुक्तं जीर्घ्याति पुष्टये परि-
णतिः स्वप्नावबोधैः सुखम् ॥ गृह्णीतो
विषयान्यथास्वमुचितान् वृत्तिं मनो-
वृत्तितः स्वस्थस्याभिहितं चतुर्दश-
विधं जन्नोरिदं लक्षणम् ॥ ११ ॥

मल, मूत्र, सम्पूर्ण दोष और सम्पूर्ण धातुओंकी शांति, अन्नपानमें इच्छा और शरीरमें कन्तिका होना, किये हुए भोजनका अच्छेप्रकारसे पचजाना, शरीरमें पुष्टि और बलका होना, सुखपूर्वक निद्राका आना, सुखपूर्वक जागना और इन्द्रियोंका अपने अपने विषयोंको अच्छेप्रकारसे ग्रहण करना, हर्ष और मनोवृत्तियोंका निर्मल होना स्वस्थ मनुष्यके ये चौदह लक्षण कहे गये हैं ॥ ११ ॥

दध्याज्यादर्शासिद्धार्थविल्वगोरोच-
नास्त्रजाम् । दर्शनं स्पर्शनं कार्यं प्रवृ-
त्तमशुभापहम् ॥ १२ ॥

दही, घृत, दर्पण, सरसो, वेल, गोरोचन और केशर इनका नित्य प्रातःकाल दर्शन और स्पर्शन करना अशुभकर्मोंको नष्ट करता है ॥ १२ ॥

पञ्चरात्रान्नखश्मश्रुकेशलोमानि कर्त-
येत् । केशश्मश्रुनखादीनां कर्तनं सं-
प्रसाधनम् ॥ पौष्टिकं धन्यमायुष्यं
शौचकान्तिकरं परम् ॥ १३ ॥

पाँच पाँच दिनमें नख, डाढी, मूँछ और केश रोमादिकको कटवावे । केश, नख, रोमादिकका कटवाना अर्थात् धौरकर्म कराना देहमें प्रसन्नता उत्पन्न करता है । तथा पुष्टि करता, धन्य, अवस्थाको स्थापन करता एवं पवित्रता और अत्यन्त कांतिको उत्पन्न करता है ॥ १३ ॥

उत्पाटयेन्न लोमानि नासायास्तु
कथञ्चन । दृष्टिदौर्बल्यतिमिरम-
भीक्ष्णोद्धरणाद्भवेत् ॥ १४ ॥

नासिकाके रोमोंको कदापि नहीं उखाड । क्यों कि नासिकाके बालोंको निरन्तर उखाडनेसे दृष्टि दुर्बल होती है और तिमिररोग उत्पन्न होता है ॥ १४ ॥

तांबूलपत्रसत्कारं पूगाढ्यश्च कफाप-
हम् । चूर्णं कफानिलहरं खादिरः क-
फापत्तनुत् ॥ १५ ॥

तांबूलपत्र—सत्कारको करता है । सुपारी—ऋफको नष्ट करदेती है । चूना—ऋफ और वायुको नष्ट करता है । खैर कत्था—कफ और पित्तको नष्ट करता है ॥ १५ ॥

संयोगतो दोषहरं कान्तिसौष्टवका-
रकम् । पथ्यं सुप्तोत्थिते भुक्ते वान्ते
श्रान्ते च मानवे ॥ १६ ॥

तथा कत्था, चूना, सुपारी आदि मिश्रित पान दोषनाशक, कांति और सुष्ठुताको उत्पन्न करता है। सोकग उठनेपर, भोजन करनेपर, वमनके अंतमें और थकनेपर मनुष्यको पान सेवन करना हितकारी है १६

तांबूलश्च विषार्त्तानां मूर्च्छाक्षयास्त-
पित्तानाम् । रूक्षदुर्बलमत्तानामहितं
चास्य शोषिणाम् ॥ १७ ॥

विषसे पीडित, मूर्च्छा, राजयक्ष्मा, रक्तपित्त, रुक्ष, दुर्बल, उन्मत्त और मुखशोषरोगी इन सबको ताम्बूल भक्षण करना हितकारी नहीं है ॥ १७ ॥

देहदृक्केशदन्ताग्निश्रोत्रवर्णबलक्षयः ।
शोषः पित्तानिलास्रं स्यादतितांबूल-
भक्षणात् ॥ १८ ॥

अत्यंत ताम्बूल भक्षण करनेसे—शरीर, दृष्टि, केश, दंत, जठराग्नि, कर्ण, वर्ण और बल इनका नाश होता है । तथा शोष, पित्त और वातरक्त रोग ये उत्पन्न होते हैं ॥ १८ ॥

पर्णमूले वसेद्व्याधिः पर्णाग्ने पापस-
म्भवः । मध्यं पण हरत्यायुः शिरा
बुद्धिविनाशिनी ॥ १९ ॥

पानकी जड़मे रोग रहते हैं, पानके अग्रभागमे पाप रहते हैं, पानका मध्यभाग आयुको हरण करता है और पानकी गिराएँ बुद्धिको नष्ट करती हैं ॥ १९ ॥

आयुरग्रेऽयशो मूले मध्येऽलक्ष्मीर्व्य-
वस्थिता । तस्मादग्रश्च मध्यश्च मूलं
पर्णे विवर्जयेत् ॥ २० ॥

पानके अग्रभागमें आयु, मूलमें अयश और मध्य-
में अलक्ष्मी निवास करती है, इसकारण पानके अग्र-
भाग, मध्यभाग और मूलको त्यागदेवे ॥ २० ॥

केशभूमिगतान्नोगाच्छिरोभ्यङ्गोऽपक-
र्षति । केशानां मृदुता स्निहं रक्षः-
शान्तिं करोति च ॥ २१ ॥ करोति
शिरसस्तृप्तिं केशानां दृढतामपि ।
तर्पणं चेन्द्रियाणाश्च दत्तोऽभ्यङ्गस्तु
मूर्धनि ॥ २२ ॥

शिरमें नित्य तेलकी मालिस करनेसे—सम्पूर्ण
शिरोगतरोग नष्ट होते हैं । बार्शमें कोमलता तथा
स्निग्धता बढ़ती है और राक्षसबाधाकी शांति होती
है एवं शिरमें तृप्ति, केशोंमें दृढता और इन्द्रियोंमें
तृप्ति उत्पन्न होती है ॥ २१ ॥ २२ ॥

केशप्रसादनी केश्या रजोजन्तुमला-
पहा । हनुमन्याशिरःकर्णशूलघ्नं कर्ण-
पूरणम् ॥ २३ ॥

कंधी—केशोंको स्वच्छ करनेवाली, केशोंको हित-
कारी, धूल, कृमि और मलको दूर कर देती है ।
तथा कानोंमें तेल डालना—हनु मन्या, शिर और
कर्णशूलको नष्ट करता है ॥ २३ ॥

अभ्यङ्गो मार्दवकरः कफवातविना-
शनः । धातूनां पुष्टिजननो मृजाव-
र्णबलप्रदः ॥ २४ ॥

नित्य शरीरपर तैलादिककी मालिस करना—मृदु-
ताकारक, कफ वातनाशक, धातुओंमें पुष्टिको उत्पन्न
करनेवाला तथा कोमलता, वर्ण और बलको सुदर
करता है ॥ २४ ॥

पादप्रक्षालनं पादमलरोगश्रमापह-
म् । दृष्टिप्रसादनं हृद्यं रक्षाघ्नं प्रीत-
वर्द्धनम् ॥ २५ ॥

नित्य पांवोंको धोना यह पांवोंके भैल, पांवोंके रोग
और पांवोंके श्रमको नष्ट करता है । दृष्टिको प्रसन्न
करता तथा हृदयको हितकारी, राक्षसबाधाको दूर
करता और प्रीतिको बढ़ाता है ॥ २५ ॥

निद्राप्रदो देवसुखश्चक्षुष्यः पादरोग-
हा । पादत्वङ्मृदुकर्ता च पादा-
भ्यङ्गः प्रशस्यते ॥ २६ ॥

नित्य पांवोंमें तैलादिक मर्दन करनेसे—सुखपूर्वक
निद्रा आती है, शरीरमें सुख उत्पन्न होता है, नेत्रों-
की ज्योति बढ़ती है, पांवोंके रोग नष्ट होते हैं और
पांवोंकी त्वचा नरम होती है ॥ २६ ॥

उद्धर्तनं वातहरं कफमेदोविलायन-
म् । स्थिरीकरणमङ्गानां त्वक्प्रसा-
दकरं तथा ॥ २७ ॥

उद्धर्तन अर्थात् उबटन करना—वातनाशक, कफ
और मेदको नष्ट करनेवाला, समस्त अँगोको स्थिर
करनेवाला और त्वचाको प्रसन्न करनेवाला है ॥ २७ ॥

तन्द्रापाप्मापशमनं लुष्टिदं पुष्टिव-
र्द्धनम् । रक्तप्रसादनं चापि स्नानम-
ग्नश्च दीपनम् ॥ २८ ॥

स्तनान—तन्द्रा और पापोको शमन करनेवाला,
संतुष्टताजनक, पुष्टिको बढ़ानेवाला, रुधिरको प्रसन्न
करनेवाला और जठराग्निको दीपन करनेवाला है २८

तत्रातिसारज्वरितकर्णशूलादितादि-
पु । आध्मानारोचकाजीर्ण भुक्तवत्सु
च गर्हितम् ॥ २९ ॥

वही स्नान-अतिसाररोगी, ज्वररोगी, कर्णरोगी,
शूलरोगी, अदितरोगी, आध्मान, अरुचि और अ-
जीणरोगी इन सबको एवं भोजन करनेके पश्चात्,
नहीं करना चाहिये ॥ २९ ॥

श्रीमत्पारिषदं शस्तं निर्मलाम्बर-
धारणम् । वृष्यं सौगन्ध्यमायुष्यं
काश्यं पुष्टिबलप्रदम् ॥ ३० ॥

निर्मलवस्त्रोका धारण करना-लक्ष्मीको बढ़ाताहै,
वीर्यवर्द्धक है एवं सुगन्धि, आयुकारक, कामना, पुष्टि
और बलको प्रदान करता है ॥ ३० ॥

सौमनस्यमलक्ष्मीघ्नं गन्धमाल्यनि-
षेवणम् ॥ ३१ ॥

पुष्पादिकी सुगन्धित मालाको धारण करना-अल-
क्ष्मी और अनेकप्रकारकी वाधाको दूर करता है ।
तथा सुन्दरताको उत्पन्न करता है ॥ ३१ ॥

पक्षमलं विशदं कान्त्यमक्षणोरञ्जित-
मञ्जनम् । नेत्रमञ्जनसंयोगाद्भवेन्निर्म-
लतारकम् ॥ ३२ ॥

नेत्रोमे अंजन आजना-नेत्रोपर पलकोको उत्पन्न
करता है, एवं निर्मल वातिकी उत्पत्ति और नेत्रोंके
तारोंको निर्मल करता है ॥ ३२ ॥

चक्षुष्यं स्पर्शनाहंश्च पदयोर्व्यसना-
पहम् । बल्यं पराक्रमसुखं वृष्यं पाद-
त्रधारणम् ॥ ३३ ॥

जूता पहरना-नेत्रोंको हितकारी, पावोंके रोगोंको
हरनेवाला, बलकारक, वृष्य और पराक्रमके सुखको
बढ़ाता है ॥ ३३ ॥

धर्मानिलरजोऽम्बुघ्नं छत्रधारणमुच्य-
ते ॥ ३४ ॥

छत्र या छत्रीको धारण करना-धूप, पवन, धूल
और वृष्टिसे रक्षा करता है ॥ ३४ ॥

सुखस्थानप्रतिष्ठानं शत्रूणाञ्च निषे-
धनम् । अवष्टम्भनमायुष्यं भयघ्नं द-
ण्डधारणम् ॥ ३५ ॥

दण्ड (अर्थात् यष्टि-लाठी) को धारण करना
सुखपूर्वक गमन करनेवाला, शत्रुओंको दूर करनेवाला,
बल और अवस्थाको उत्पन्न करनेवाला तथा भयको
दूर करता है ॥ ३५ ॥

अग्निर्वातकफस्तम्भशीतवेपथुनाशनः ।
आमाभिष्यन्दशमनो रक्तपित्तप्रको-
पनः ॥ ३६ ॥

अग्निका सेवन-वात, कफ, स्तम्भ, शीत, कम्प,
आम और अभिष्यन्दको शमन करनेवाला तथा
रक्तपित्तको कुपित करनेवाला है ॥ ३६ ॥

आहारः प्राणनः सद्यो बलकृद्देह-
धारकः । शक्त्यायुःशुक्रसत्त्वोजस्ते-
जरुत्साहवर्द्धनः ॥ ३७ ॥

भोजन-तृप्तिकारक, तत्काल बलकारक, देहधारक
तथा शक्ति, आयु, शुक्र, सत्त्व, ओज, तेज और
उत्साहको बढ़ाता है ॥ ३७ ॥

अपि शाकं जलस्विन्नं लवणस्नेहभ-
जितम् । बुभुक्षिनस्य कल्पं स्यात्
स्वादु स्याद्बृंहणं तथा ॥ तत्तु षड्स-
संपन्नं मन्दाग्नेर्भोजनञ्च यत् ॥ ३८ ॥

जलमे सजिाहुआ, स्नेह और नमकके द्वारा
संस्कार किया हुआ केवल शाक भी भूखे मनुष्यके
लिये स्वादिष्ट और पुष्टिकारक भाजन होता है और
पडूरससंयुक्त भोजन होने पर भी वह मंदाग्निवाले
मनुष्यके लिये सदैव अहितकर होता है ॥ ३८ ॥

क्षुत्सम्भवति जीर्णेषु मलदोषरेसपु
च । उचितोऽनुचितो वापि सोऽन्न-
काल उदाहृतः ॥ ३९ ॥

मल, दोष और रसके जीर्ण होनेपर क्षुधा लगती
है, इस कारण समय ठीक हो चाहे ठीक न हो जब
भूख लगे तब ही भोजनका समय जानना
चाहिये ॥ ३९ ॥

यः प्रसादः परोऽन्नस्य परं जीर्णस्य
सर्वशः । स रसोऽजलयस्तस्य नव

देहेषु देहिनः ॥ ४० ॥ रक्तस्यांजलयस्त्वष्टौ शकृतः सप्त सर्वशः । पित्तस्यांजलयः पञ्च षट् कफस्य प्रचक्षते ॥ ४१ ॥ मूत्रस्य विद्याच्चत्वारो वसायाश्चाञ्जलित्रयम् । द्वावञ्जली भेदसस्तु मज्जश्चैवाञ्जलिर्मतः ॥ ४२ ॥ शुक्रस्याप्यञ्जलिर्ज्ञेयो भास्तिष्कस्यांजसरतथा । चत्वारोञ्जलयः स्त्रीणां रजसः प्रकृतिस्थितिः ॥ ४३ ॥ द्वावञ्जली प्रसूतायाः स्तन्यस्यापीह योषिताम् । एवं तस्य परं मानमनिर्देश्यं प्रचक्षते ॥ ४४ ॥ प्रमाणमेतद्घातूनामदुष्टानामुदाहृतम् । हीनाः स्वेन प्रमाणेन विविधाश्चापि धातवः ॥ योजयन्ति विकारैश्च दोषा वृद्धाः क्षयप्रदाः ॥ ४५ ॥

जो अन्नके सर्वप्रकारसे जीर्ण होनेपर भोजनका रस बनता है, वह मनुष्योंके शरीरमें नव अंजलिके परिमाण है । इस प्रकार शरीरमें नव अजलि परिमाण है । रुधिर आठ अंजलि परिमाण है । विष्टा सात अंजलि परिमाण है । पित्त पाँच अंजलिभर है । कफ छः अंजलिभर है । मूत्र चार अंजलि परिमाण है । वसा तीन अंजलि परिमाण है । भेद दो अंजलि परिमाण है । मज्जा एक अंजलिभर है । तथा शुक्र, मस्तिष्क और ओज ये प्रत्येक पदार्थ भी एक एक अजलि परिमाण स्थित है । स्त्रियोंके मासिकधर्मका रुधिर (रज) चार अंजलि परिमाण है । और प्रसूता स्त्रीके स्तनोंमें दूध दो अंजलिपरिमाण है । इसप्रकार शरीरगत निर्दोष धातुओंका यह परिमाण कहा है । किन्तु अपने देहके प्रमाणानुसार दोषोंकी वृद्धि और क्षयके क्रमसे हीन या अधिक अनेकप्रकारके विकारोंको योजित करनेवाली धातु जाननी ॥ ४०-४५ ॥

बालव्यजनमौजस्यं मक्षिकादीन् व्यपोहति ॥ ४६ ॥

चमर अथवा चमरीकी पवन-तेजोवर्द्धक और मक्षिका आदिको दूर करती है ॥ ४६ ॥

सेवेत विषयान् काले मुक्ता तत्परतां वशी । नातिजागरणं निद्रां सर्वभूतहितैषिताम् ॥ ४७ ॥ देवगोब्राह्मणाचार्य्यं गुरुवृद्धान् सदा र्चयेत् ॥ ४८ ॥

जितेन्द्रिय पुरुष विषयोको यथोचित समयमें सेवन करे, किन्तु अपने चित्तसे वशीभूत उनमें तत्पर न हो एवं न अत्यंत जागरण करे और न अत्यंत शयन करे । संपूर्ण प्राणियोंके हितैषी मनुष्योंको देवता, गो ब्राह्मण, आचार्य्य, गुरु और वृद्ध इनकी सदैव पूजा करनी चाहिये ॥ ४७ ॥ ४८ ॥

चतुष्पथनमस्कर्ता दाता यष्टा प्रियंवदः । क्रुद्धानामनुनेता च दीनानामनसूयकः ॥ ४९ ॥

वह मनुष्य चतुष्पथोको नमस्कार करनेवाला, दान देनेवाला, यज्ञ करनेवाला और प्रियवचन बोलनेवाला, कुपित मनुष्योंकी प्रार्थना करनेवाला, दीन-जनकोंकी रक्षा करनेवाला और किसीकी निन्दा नहीं करनेवाला होता चाहिये ॥ ४९ ॥

आश्वासकश्च भीतानां बन्धुवत्सर्वदेहिनाम् । रागद्वेषनिदानानां हन्ता धर्मपरायणः ॥ ५० ॥

भयभीतमनुष्योंको धैर्य्य देना, संपूर्ण प्राणियोंको भाई बन्धुके समान समझना, राग और द्वेषके कारणोंको त्यागना और धर्ममें तत्पर रहन चाहिये ॥ ५० ॥

नित्यं हिताहारविहारसेवी समीक्ष्यकारी विषयेष्वसक्तः । दाता समः सत्यपरः क्षमावानाप्तोपसेवी च भवत्यरोगः ॥ ५१ ॥

नित्य हितकर आहार और विहारको सेवन करने वाला, विचार कर काय्योंको करने वाला, विषयोंमें आसक्त न होनेवाला, दीन अथवा दुःखित जनकोंको दान देनेवाला, सबको समान समझनेवाला, सत्यवान, क्षमायुक्त और आप्तजनकी सेवा करनेवाला अथवा ईश्वरकी उपासना करनेवाला पुरुष कदापि रोगको प्राप्त नहीं होता ॥ ५१ ॥

वृष्टतोऽर्कं निषेवेत जठरेण हुताशन-
म् । स्वामिनं सर्वभावेन पुण्यश्लोक-
ममायया ॥ ५२ ॥

सूर्यकी धूपको पृष्ठ (पीठ) के द्वारा सेवन
करे, आग्निको उदरसे सेवन करे, स्वामीको सर्वभावसे
और परमात्माको पुण्यलोककी प्राप्तिके लिये
निष्कपटतासे सेवन करे ॥ ५२ ॥

भुंक्ष्व वास्तूकशाक्रेण तक्रं सलवणं
पिव । राजन् हरीतकीं भुंक्ष्व नश्य-
न्तु भवतो गदाः ॥ ५३ ॥

हे राजन् वधुयके शाकके साथ भोजन करो,
लवण मिलाकर तक्रको पान करो और सदेव
हरदको भक्षण करो । इस प्रकार करनेसे सर्व-
भ्रूणरके रोग नष्ट हो जायेंगे ॥ ५३ ॥

न वेगान्धारयेद्धीमान् वातविण्मूत्र-
रेतसाम् । जृम्भाकासक्ष्वोद्धारश्वास-
तृष्णावमीक्षुधाम् ॥ ५४ ॥ धारिते-
ष्वेषु जायन्ते तन्मार्गस्थानजा गदाः ।
धार्या वेगस्तु शस्तानां मनोवाक्का-
यकर्मणाम् ॥ ५५ ॥

बुद्धिमान् मनुष्य वायु, विष्टा, मूत्र, वीर्य,
जम्माई, खोसी, छींक, उद्धार, श्वास, तृष्णा, वमन
और क्षुधा इनके वेगोंको कदापि धारण न करे
अर्थात् नहीं रोके क्योंकि इनको धारण कर-
नेसे इनके मार्गस्थानोंमें अनेकप्रकारके रोग उत्पन्न
होते हैं, किंतु मन, वचन और शरीरके कर्मोंके
वेगोंको अवश्य रोके ॥ ५४ ॥ ५५ ॥

न पीडयेदिन्द्रियाणि न चैतान्याति-
लालयेत् । अनुजायाः प्रतिपदं सर्व-
धर्मेषु तुल्यताम् ॥ ५६ ॥

ज्ञानेन्द्रियोंको अत्यन्त पीडित न करे और न
कर्मन्द्रियोंके अत्यन्त लाड लडावे । तथा स्त्रीसे प्रति-
क्षण संपूर्ण धर्मोंमें समानताका व्यवहार करे ॥ ५६ ॥

स्त्रियं श्रियं धनञ्चापि परस्याभिलषेन्न
हि । न कुर्याच्चंचलं चेतो न कालमति-
वाहयेत् ॥ ५७ ॥

परस्त्री, पराई शोभा और पराये धनकी
कदापि अभिलाषा न करे । चित्तको अत्यन्त चंचल
न करे और समयको व्यर्थ नहीं करे ॥ ५७ ॥

प्रणयेनापि नो वाच्यं वचनं परतोऽपि
यत् । अहिंसा सततं कार्य्या धार्य्या
चेतस्यनित्यता ॥ ५८ ॥

दूसरोंको सन्ताप देनेवाले वचन किसीसे नम्र-
भावसे भी कदापि न कहे, सदैव अहिंसाव्रतका
धारण करे और चित्तमें संसारकी अनित्यता
धारण करे ॥ ५८ ॥

हिताभिर्जुहुयान्नित्यमन्तराग्निं समा-
हितः । अन्नपानसमिद्धिर्ना मात्रा-
कालौ विचारयन् ॥ ५९ ॥

मनुष्य प्रतिदिन हितकारी द्रव्योंके द्वारा साव-
धान होकर अन्नपानरूपी समिधाओंसे मात्रा और
कालको विचार कर जठराग्निमें आहुति देवे ॥ ५९ ॥

तच्च नित्यं प्रयुञ्जीत स्वास्थ्यं येनालु-
वर्त्तते । अजातानां विकाराणामनु-
त्पत्तिकरञ्च यत् ॥ ६० ॥

जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे और जो नहीं उत्पन्न
हुए विकारोंको उत्पन्न न करे ऐसे हितकारी
आहार विहार नित्य सेवन करने चाहिये ॥ ६० ॥

सर्वमन्यत्परित्यज्य शरीरमनुपाल-
येत् । तद्भावे हि भावानां सर्वाभा-
वः शरीरिणाम् ॥ ६१ ॥

और समस्त विषयोंको छोड़कर केवल शरीरकी
रक्षा करे । क्योंकि मनुष्योंके उस शरीरके अभावसे
सम्पूर्ण भावोंका सर्वथा अभाव होजाता है ॥ ६१ ॥

मतिर्वचः कर्मसुखानुबान्धि सत्त्वं
विधेयं विशदा च बुद्धिः । ज्ञानं त-
पस्तत्परता च योगे यस्यास्ति तं
नानुपतन्ति रोगाः ॥ ६२ ॥

जिसके मति, वचन और कर्ममें अनुबंध,
सत्यपरायणता, निर्मलबुद्धि तथा ज्ञान तप और
योगमें तत्परता है उसके कदापि रोग उत्पन्न नहीं
होते ॥ ६२ ॥

अर्थेष्वलभ्येष्वकृतप्रयत्नं कृतादरं
नित्यमुपायवत्सु । जितेन्द्रियं नालु-
पतन्ति रोगास्तत्कालयुक्तं यदि ना-
स्ति दैवम् ॥ ६३ ॥

अर्थेष्वलभ्येष्वकृतप्रयत्नं कृतादरं
नित्यमुपायवत्सु । जितेन्द्रियं नालु-
पतन्ति रोगास्तत्कालयुक्तं यदि ना-
स्ति दैवम् ॥ ६३ ॥

जो अलभ्यविषयोमें यत्न नहीं करता अर्थात् जो दुःसाध्य पदार्थोंकी प्राप्ति होनेकी इच्छा नहीं करता और जो उपाय करनेसे सिद्ध होनेवाले कार्योंमें नित्य आदर करता है और जो निरंतर जितेन्द्रिय रहता है वह यदि भाग्यहीन हो तथापि समयानुकूल होनेपर उसके कदापि रोग उत्पन्न नहीं होते ॥ ६३ ॥

कफे प्रच्छेदनं पित्ते विरेको वस्तिरीरिणे । शस्यते त्रिष्वपि हितो व्यायामो दोषपाचनः ॥ भुक्तं विरुद्धमप्यन्नं व्यायामान्न प्रदुष्यति ॥ ६४ ॥

कफके रोगोमें वमन, पित्तके रोगोंमें विरेचन, वातके रोगोंमें वस्तिकर्म और तीनों दोषोंके विकारोंमें व्यायाम (परिश्रम) हितकारी है । क्योंकि व्यायाम दोषपाचक है तथा खाया हुआ विरुद्ध अन्न भी व्यायामको करनेसे विरुद्धता नहीं करता है ॥ ६४ ॥

अशाकभोजीवृतमत्ति योऽन्धसा पयो-रसान् सेवति नाति योऽम्भः । निरामभुग्वातकृतां विदाहिनां न च प्रभु-गर्जीर्णभुगल्परुक् सः ॥ ६५ ॥


जो मनुष्य कभी शाकके साथ भोजन नहीं करता तथा घृत, भात, एव दूध और मांसरसको नित्य सेवन करता है, जो अत्यंत जल नहीं पीता, जो पक और हलका भोजन करता है, जो वातकारक और दाहकारक भोजन नहीं करता और जो वारम्बार नहीं खाता, जर्ण होनेपर भोजन करता है वह बड़े बड़े रोगोंको प्राप्त नहीं होता ॥ ६५ ॥

नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी सदा । स्वशरीरस्य मेधावी कृत्येष्विवहितो भवेत् ॥ ६६ ॥

जिसप्रकार नगरी (नगरपति) नगरकी और रथी (रथपति) रथकी सदैव रक्षा करता है, उसीप्रकार बुद्धिमान् मनुष्यको सब कामोंमें यत्नपूर्वक अपने शरीरका हित करना चाहिये ॥ ६६ ॥

इति श्रीवंगसेने भापाटीकायामनागतामयप्रति-
पधाधिकार समाप्त ॥ ८३ ॥

अथ द्रव्यगुणाधिकारः ।



चक्षुष्यो मधुरो वृष्यो बल्यो धातु-
विवर्द्धनः ।

प्रथम रसोंके गुणोंको कहते हैं । मधुररस—नेत्रोंको हितकारी, वृष्य, बलकारक और धातुवर्द्धक है ।

अम्लो रसो मतो हृद्यः क्लेदी दीपन-
पाचनः ॥ १ ॥

अम्लरस—हृदयको हितकारी, हृदयजनक, दीपन और पाचन है ॥ १ ॥

दीपनो ज्वरतृष्णाघ्नस्तित्तः शोध-
नरोपणः ।

तिक्तरस—कडुआ, अम्लिको दीपन करनेवाला, ज्वर और तृषाको हरनेवाला, तथा शोधन और रोपण है ॥

पीडनो लेखनः स्तम्भी कषायो ग्रा-
हिरोपणः ॥ २ ॥

कषायरस—पीडन, लेखन, स्तम्भक, मलरोधक और व्रणको भरनेवाला है ॥ २ ॥

लवणः शोधनो रुच्यः पाचनः कफ-
पित्तहा ।

लवणरस—शोधन, रुचिकारक, पाचन, कफ और पित्तको नष्ट करता है ।

कटुरुष्णश्च तीक्ष्णश्च विशदो वातपि-
त्तकृत् ॥ ३ ॥

कटुरस—तीखा चरपर, उष्ण, तीक्ष्ण, विशद, वात और पित्तकारक है ॥ ३ ॥

रसवीर्यविपाकानामाश्रयाद्द्रव्यमुत्त-
मम् । उत्तरोत्तरसंश्लेषादितरेषां प्रधा-
नता ॥ ४ ॥

रस, वीर्य और विपाकके आश्रित होनेसे द्रव्य उत्तम गुणवाले हैं । अर्थात् जैसा जैसा द्रव्योंमें रस, वीर्य और विपाक होता है, वैसाही उसमें गुण होता

है। और उन्ही उत्तरोत्तर गुणोंके भिमिक्त होनेसे उत्तरोत्तर द्रव्योंमें प्रधानता होती है ॥ ४ ॥

**सतिक्तकटुकं कुष्ठं स्वल्पवातविषाप-
पहम् ।**

कूठ-कडना, चरपरा तथा किंचित् वायु और विषको नष्ट करनेवाला है ॥

**स्वादुपाकरसो ज्ञेयस्तगरः कुष्ठवद्
गुणैः ॥ ५ ॥**

तगर-पाकमें मधुर है और इसके जेप गुण कूठ-के समान जानने ॥ ५ ॥

**बल्याश्वगन्धा वातघ्नी कासश्वास-
क्षये हिता ।**

असगंध-बलकारक, वातनाशक तथा खाँसी, श्वास और क्षयरोगमें हितकारी है ।

**देवदारु भवेत्तद्रत्कासश्वासामयाप-
हम् ॥ ६ ॥**

देवदारु-असगंधके समान गुणोंवाला है । तथा खाँसी और श्वासरोगको दूर करता है ॥ ६ ॥

**सौण्डं लघु च शीतश्च सुगन्धि क-
टुकं गुरु ।**

विशेष करके उष्ण, लघु, शीतल, सुगन्धित, कटु और भारी है ॥

**वातपित्तहरी बल्या वृष्या संग्राहिणी
बला ॥ ७ ॥**

खिरैटी-वातपित्तनाशक, बलकारक, वृष्य और मलरोधक है ॥ ७ ॥

**श्रीफलैरण्डमूलानि शूले वातकफो-
त्वणे ।**

बेल और अण्डर्का जड वात और कफकी उत्व-णता तथा शूलमें अतीव हितकारी है ॥

**पृश्निपर्णी स्थिरा चैव पित्तश्लेष्माति-
सारिणाम् ॥ ८ ॥**

पृश्निपर्णी और शान्धिपर्णी-पित्तकफातिसारमें हितकारी है ॥ ८ ॥

**वातभोजनसंस्कारे शस्यते गन्धप-
त्रिका ।**

कपूरकचरी-त्रायुके विकारोंमें और भोजनके संस्कार करनेमें हितकारी है ।

**चक्षुष्यं वातापित्तघ्नं बल्यं लोहितच-
न्दनम् ॥ ९ ॥**

लालचन्दन-नेत्रोंको हितकारी, वातपित्तनाशक और बलकारक है ॥ ९ ॥

**ह्रीविरं छर्दिहल्लासं तृष्णातीसारना-
शनम् ।**

सुगन्धवाला-वमन, उबकाई, तृषा और अतिसार इनको दूर करता है ।

**पाचनं दीपनं वृष्यं शूलघ्नं विश्वभे-
षजम् ॥ १० ॥**

सोठ-पाचन, अग्निप्रदीपक, वृष्य और शूलना-शक है ॥ १० ॥

**वातश्लेष्महरं हृद्यं मुस्तं पित्तविरोधि
च ।**

मोथा-वातकफनाशक, हृदयको हितकारी और पित्तको दूर करनेवाला है ।

**पिप्पली प्लीहशुल्मार्षजठरेषु विधी-
यते ॥ ११ ॥**

पीपल-प्लीहा, गुल्म, बवासीर और उदररोगमें अतीव हितकारी है ॥ ११ ॥

**दीपनी पाचनी हृद्या नात्युष्णा कटु-
का भता ।**

कुटकी-दीपन, पाचन, हृदयको हितकारी और अत्यन्त उष्ण नहीं है ।

**मरिचं नातिशीतोष्णं पित्तलं कफ-
वाताजित् ॥ १२ ॥**

मिरच-न अत्यन्त शीतल है और न अत्यन्त उष्ण है, पित्तकारक और कफवातनाशक है ॥ १२ ॥

संग्राहि रोचनं मुस्तं दीपनं दोष-
पाचनम् ।

नागरमोथा-मलरोधक, रुचिकारक, अग्निको
दीपन करनेवाला और दोषोंको पचानेवाला है ।

सतिक्तातिविषा सोष्णा संग्रहिण्याम-
पाचनी ॥ १३ ॥

अतीस-कडवा, गरम, संग्राही और आमको
पचानेवाला है ॥ १३ ॥

गुडूची वातपित्तघ्नी मेहघ्नी पाचनी
सरा । छर्दिकुष्ठज्वरश्वासकासारोच-
कनाशिनी ॥ १४ ॥

गिलोय-वातपित्तनाशक, प्रमेहहारक, पाचक,
सारक तथा वमन, कोढ़, ज्वर, श्वास, खाँसी और
अरुचिको दूर करता है ॥ १४ ॥

किराततिक्तकस्तिको रक्तपित्तज्वरा-
पहः । यावद्गुणै रसैस्तिकता प्रोक्ता भू-
निम्बवत्सकौ ॥ १५ ॥ किराततिक्त-
वज्जैये त्रायमाणदुरालभे । कफवा-
तज्वरच्छर्दिकृम्यरोचकनाशने ॥ १६ ॥

चिरायता-कडवा, रक्तपित्त और ज्वरको दूर करने
वाला है । जो गुण और रस कुटकीके फहे है वही
गुण और रस चिरायते और इन्द्रजौके है । चिरायतेके
समान त्रायमाण और धमासेके गुण जानने । विशेष
कर ये दोनों कफ, वायु, ज्वर, वमन, कृमि और अरु-
चिको नष्ट करते हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥

कफपित्तहरो तिक्तावरिष्टखदिरद्रुमौ ।
तृष्णारोचकधीर्सपकंडूकुष्ठविनाशनौ
॥ १७ ॥

नीम और खैर-कफपित्तनाशक, तिक्त तथा तृषा,
अरुचि, विसर्प, कंड़ और कुष्ठको नष्ट करनेवाले
हैं ॥ १७ ॥

वासकः कासवैस्वर्यरक्तपित्तकफा-
पहः ।

अडूसा-खाँसी, स्वरभंग, रक्तपित्त और कफको
दूर करता है ।

सेव्यः पित्तकफस्वेदाहदौर्गन्धना-
शनः ॥ १८ ॥

खस-पित्त, कफ, पसीना, दाह और दुर्गंधको नष्ट
करता है ॥ १८ ॥

कफवातहरी पथ्या बुद्ध्यायुःस्वरव-
द्धिनी । विबन्धश्वासकासास्त्रहिक्का-
मरुचिनाशिनी ॥ १९ ॥

हरड-कफवातनाशक, बुद्धि, आयु, स्वरको बढ़ाने-
वाली तथा विबन्ध, श्वास, खाँसी, रुधिरविकार,
हिचकी, आम और अरुचिको नष्ट करती है ॥ १९ ॥

कफवातहरं केश्यमक्षमक्षिबलप्रदम् ।
वयसः स्थापनं वृष्यं शस्तमामलकं
त्रिषु ॥ २० ॥

हरड-कफवातनाशक, केशोंको हितकारी और
नेत्रोंकी ज्योतिको बढ़ानेवाला है । एवं भामला-अव-
स्थाको स्थापन करनेवाला, वीर्यवर्धक और त्रिफ-
लेकी तीनों औषधियोंमें श्रेष्ठ है ॥ २० ॥

ककुभो भग्नदग्धाती कदरो दन्त-
दाढ्यकृत् ।

अर्जुन-भग्नरोगको दूर करनेवाला है और ज्वेत
खैर-दाताको पक्का करता है ।

कण्डूरोगापचीपिल्ले विशेषाद्रजनी
हिता ॥ २१ ॥

हलदी-कण्डूरोग, अपची और पिल्लरोगमें विशेष
पकर हितकारी है ॥ २१ ॥

तद्रहार्वी विशेषेण कफाभिष्यन्दना-
शिनी । पार्श्वरुक्कासश्वासास्त्रिहिक्का-
घ्नं पौष्करम्मतम् ॥ २२ ॥ मूलं कर्क-
टकस्यापि शृङ्गीकुक्ष्यनिले हिता ।
जीरकैलाद्रयं पृथ्वी चव्या दीपनपा-
चनी ॥ २३ ॥

जो गुण हलदीमें है, वही गुण दारुहलदीके जान-
ने । विशेष कर यह कफ और अभिष्यन्दको नष्ट
करनेवाली है । पोहकरमूल-पसलीकी पीडा, खाँसी,
श्वास और हिचकीको नष्ट करता है । कर्कट-
शृंगीकी जड और शृंगी उदररोग और वातरोगमें

हितकारी है । जीरा, दोनों इलायची, कालाजीरा, और चव्य दीपन और पाचन है ॥ २२ ॥ २३ ॥

भेदनं पिप्पलीमूलं दीपनं शूलनाशनम् । कटुफलो मुखरोगघ्नः कफसथासकफापहः ॥ २४ ॥

पीपलामूल-भेदक, दीपन और शूलनाशक है । कायफल-मुखरोगनाशक, खांसी, श्वास और कफनाशक है ॥ २४ ॥

कर्पूरः शीतलः पाके चक्षुष्यः कफनाशनः । सुगन्धिः कटुको हृद्यः कंकोलः कफवातजित् ॥ २५ ॥

कपूर-पाकमे शीतल, नेत्रोंको हितकारी और कफनाशक है । शीतलचीनी सुगंधित, कटु, हृदयको हितकारी है और कंकोल कफवातनाशक है ॥ २५ ॥

तद्रज्जातीफलं प्रोक्तं लवङ्गकुसुमानि च । चक्षुष्यं मधुरं सेव्यं पुण्डरीकं च शस्यते ॥ २६ ॥

इसीप्रकार जायफल और लौंगके गुण जानने । पुण्डरीक (पुण्डेरिया) और लामजकतृण-नेत्रोंको हितकारी और मधुर है ॥ २६ ॥

कुंकुमं तूष्णवीर्यं स्याद्वातघ्नं विषनाशनम् । नात्युष्णं नातिशीतञ्च वीर्यतो मरिचं सितम् ॥ २७ ॥

केशर-उष्णवीर्य, वातनाशक और विषको हरनेवाला है । सफेदमिरच-न अत्यंत गरम है और न अत्यंत शीतल है ॥ २७ ॥

कण्डूघ्नं रोचनं हृद्यं वृष्यं चैवार्द्रकं स्मृतम् । स्निग्धं तीक्ष्णं कटुरसं शूलाजीर्णविबन्धजित् ॥ २८ ॥

अदरख-कण्डुनाशक, रुचिकारक, हृदयको हितकारी, वृष्य, स्निग्ध, तीक्ष्ण, कटुरसयुक्त तथा शूल, अजीर्ण और विबन्धको दूर करता है ॥ २८ ॥

तीक्ष्णोष्णं कटुकं पाके रुच्यं पित्ताश्रिवर्द्धनम् । कटुश्लेष्मानिलहरं गन्धाढ्यं जीरकं हितम् ॥ २९ ॥

जीरा-तीक्ष्ण, उष्ण, पाकमे कटु, रुचिकारक, पित्त और अग्निको बढ़ानेवाला, कटु, कफवातनाशक, सुगंधित और हितकर है ॥ २९ ॥

आर्द्रा कुस्तुम्बरी कुय्यात्स्वादु सौगन्ध्यहृद्यताम् । सा शुष्का मधुरा पाके तृष्णादाहरुजापहा ॥ ३० ॥

गीला धनियों-स्वादु, सुगंधिजनक और हृदयको हितकारी है । सूखा धनियों-पाकमें मधुर, तथा तृषा और दाहकी पीडाको दूर करता है ॥ ३० ॥

जम्बीरः पाचनस्तीक्ष्णः कृमिवातकफापहः । सुरभिर्दीपनो हृद्यो मुखवैशद्यकारकः ॥ ३१ ॥

जम्बीरीनींबू-पाचक, तीक्ष्ण, कृमि, वात और कफनाशक तथा सुन्दर, गंधयुक्त, अग्निको दीपन करनेवाला, हृदयको हितकारी और मुखमे विशदता उत्पन्न करता है ॥ ३१ ॥

कफानिलविषश्वासकासदौर्गन्ध्यनाशनः । पित्तहृत्पांश्वशूलघ्नः सुरसः समुदाहतः ॥ ३२ ॥

गन्धतृण-कफ, वात, विष, श्वास, खांसी और दुर्गन्धको दूर करनेवाला एवं पित्तनाशक और पार्श्वशूलको नष्ट करनेवाला है ॥ ३२ ॥

कफघ्ना लघवस्तीक्ष्णा वीर्योष्णाः पित्तवर्द्धनाः । कटुतिक्तरसाश्चैव सुमुखार्जकभूस्तृणाः ॥ ३३ ॥

वनतुलसी, सफेदवनतुलसी और भूस्तृण ये तीनों कफनाशक, हलके, तीक्ष्ण, उष्णवीर्य, पित्तवर्द्धक, कटु और तिक्तरसयुक्त है ॥ ३३ ॥

कटुः सक्षारमधुरः शिशुस्तिक्तोऽतिपिच्छिलः । मधुशिशुः परास्तिक्तः शोषघ्नो दीपनः कटुः ॥ ३४ ॥

सहिजना-कटु, खारी, मधुर, तिक्त और अत्यन्त पिच्छिल है । तथा लालुसहिजना-अधिक तिक्त, शोषनाशक, दीपन और कटु है ॥ ३४ ॥

हेम स्वादुरसं प्रोक्तं वर्णायुर्वेलवर्द्ध-
नम् । अम्लास्तिकरराः प्रोक्तो रजतोऽ-
म्लरसः सरः ॥ ३५ ॥

सुवर्ण-मधुररसयुक्त, तथा वर्ण, आयु और बलको बढ़ानेवाला है । तथा चाँदी-अम्लरस और तिक्तरस युक्त, मधुर और सारक है ॥ ३५ ॥

कृष्णायः पांडुरोगघ्नं पित्तलं चापि
तद्गुणम् । स्रोतोर्जं रक्तपित्तघ्नं तद्व-
त्काञ्चनगैरिकम् ॥ ३६ ॥

कालालोह-पांडुरोग नाशक है । और पित्तलके गुणभी इसीके समान जानने । सुफेदअंजन-रक्त-पित्तनाशक है । तथा पीले गेरुके भी गुण इसीके समान जानने ॥ ३६ ॥

सौवीरमञ्जनं पथ्यं परं दृष्टिप्रसाद-
नम् । विलायनं विशेषेण चक्षुष्यं त्रपु-
सीसकम् ॥ ३७ ॥

काला अंजन-नेत्रोको पथ्य और दृष्टिको अत्यन्त प्रसन्न करता है । रांग और सीसा-नेत्ररोगनाशक और विशेषकरके नेत्रोको हितकारी है ॥ ३७ ॥

रक्तपित्ते क्षतोरस्के शस्तं खर्जूरमस्त-
कम् ।

खजूरका मस्तक-रक्तपित्त और उरःक्षतरोगमे हितकारी है ।

विदारिकन्दो वृष्यश्च वातपित्तहर-
स्तथा ॥ ३८ ॥

विदागीकन्द-वृष्य, तथा वात और पित्तको हरने-
वाला है ॥ ३८ ॥

माणकं स्वादु शीतञ्च गुरु चापि
प्रकीर्तितम् । सकंदलशुनोऽत्युष्णः
शूरणो गुदकीलहा ॥ ३९ ॥

मानकन्द-मधुर, शीतल और भारी है । लसुनक-
न्द-अत्यन्त उष्ण है । जिमीकन्द-बवासीरको नष्ट करनेवाला है ॥ ३९ ॥

चक्षुष्यं सैन्धवं वृष्यं विशेषात् शम-
नं स्मृतम् । सौवर्चलं विबन्धघ्नमुष्णं
हृच्छूलनाशनम् ॥ ४० ॥

सैधानमक-नेत्रोको हितकारी, वृष्य और विशेष कर दोषोको शमन करनेवाला है । कालानमक-विबन्धनाशक, गरम और हृदयशूलको नष्ट करता है ॥ ४० ॥

उष्णं शूलहरं तीक्ष्णं विडं वातानुलो-
मनम् ।

विड नमक-गरम, शूलनाशक, तीक्ष्ण और वायुको अनुलोमन करनेवाला है ।

रुचकं वह्निकृत्तीक्ष्णं सामुद्रं क्लेदनं
गुरु ॥ ४१ ॥

रुचक नोन-अग्निको दीपन करनेवाला और तीक्ष्ण है । सामुद्रनमक-क्लेदकारक और भारी है ॥ ४१ ॥

हृत्पांडुरोगघ्नो यवक्षारोऽतिदी-
पनः । दहनो दीपनस्तीक्ष्णः स्वर्जि-
क्षारोऽतिदीपनः ॥ ४२ ॥

जवाखार-हृदय, पांडु और उदररोगको नष्ट करता है । तथा अत्यन्त दीपन है । चीता-दीपन और अत्यन्त तीक्ष्ण है । सज्जीखार-अग्निको अत्यन्त दीपन करनेवाला है ॥ ४२ ॥

अग्निदीप्तिकरस्तीक्ष्णघृङ्गणः क्षार उ-
च्यते ॥ ४३ ॥

सुहागा-अग्निको दीपन करनेवाला, खार और अत्यन्त तीक्ष्ण है ॥ ४३ ॥

या गन्धं केतकीनां वहति परिमलं
वर्णता पिञ्जराभा । स्वादे तिक्ता
कटुर्वा परिलघुतुलिता मर्दिता चि-
क्कणाभा ॥ भस्मत्वं नैति दग्धा
छिमिछिमि कुरुते चर्मगन्धा हुता-
न्ते । सा शुद्धा शोभनीया वरतनुमृ-
गजा राजयोग्यप्रशस्ता ॥ ४४ ॥

जिसमें केतकीके समान सुगन्ध आती हो, जो सुवर्णके समान रक्तपित्त मिश्रित वर्णवाला हो, स्वादमें तिक्त अथवा कटु हो, तोलमें हलकी हो, मर्दन करनेमें चिकनी हो, अग्निमें डालनेसे भस्म नहीं हो तथा चिमचिम शब्द करे और चमड़ा जल-नेकीसी जिसमें गन्ध आवे वह कस्तूरी शुद्ध, शोभनीय

उत्तम मृगके शरीरसे उत्पन्न हुई और राजाओके सेवन करने योग्य जाननी चाहिये ॥ ४४ ॥

कारतलजलमध्ये स्थापयित्वा महाद्भिः
पुनरपि तदवश्यं चिन्तनीयं मह-
द्भिः । भवति यदि सरक्तं तज्जलं पी-
तवर्णं न भवति मृगनाभिः कृत्रिमो-
ऽसौ विकारः ॥ ४५ ॥

हाथकी हथेलीमें जलको रख कर और उसमें कस्तूरी
डाळकर फिर विद्वान मनुष्योंको कुछ समय तक उस-
की परीक्षा करनी चाहियो। यदि वह जल लाल अथवा
पीतवर्ण होजाय तो उसको कस्तूरी नहीं समझना,
किन्तु कृत्रिम (वनावटी) विकार जानना ॥ ४५ ॥

सौवर्चलन्तु काचाभं सैन्धवं स्फटि-
कप्रभम् । करमर्दफलाकारा द्राक्षा
सा मध्यमा स्मृता ॥ ४६ ॥

कालानमक-काँचके समान उत्तम होता है ।
सैधानमक स्फटिकमणिके समान उत्तम होता है ।
दाख करौदेके समान मध्यम होती है ॥ ४६ ॥

उत्तमा सैव विज्ञेया या भवेद्गोस्तना-
कृतिः । रक्तचन्दनमत्यन्तं लोहितं
चोत्तमं मतम् ॥ ४७ ॥

वही दाख गायके स्तनोक समान आकृतिवाली
उत्तम होती है - और लालचन्दन-अत्यंत लाल
उत्तम होता है ॥ ४७ ॥

हरिद्रा कुंकुमाभा तु श्रेष्ठा पीता तु
मध्यमा । अतिपीता प्रशस्ता तु ज्ञे-
या दारुनिशा बुधैः ॥ ४८ ॥

हलदी केशरके समान उत्तम होती है ।
पीले रंगकी हलदी मध्यम होती है । दारु हलदी
अत्यन्त पीली श्रेष्ठ होती है ॥ ४८ ॥

खण्डश्च विमलं श्रेष्ठं चन्द्रकान्त-
समप्रभम् । रुद्रपुष्पसुसंकाश मनो-
ह्ला चोत्तमा मता ॥ ४९ ॥

खांड-उज्ज्वल और चन्द्रमाके समान धवल
श्रेष्ठ होती है । तथा मैनशिल-रुद्रपुष्पके समान
वर्णवाली उत्तम होती है ॥ ४९ ॥

श्वेतचन्दनमत्यन्तश्रेष्ठं गुरु सुगन्धि-
च । सुवर्णच्छविकं ज्ञेयं धातुमाक्षि-
कसुत्तमम् ॥ ५० ॥

सुफंदचन्दन-भारी और सुगन्धित उत्तम होता है ।
सोनामारी-सोनेकी कांतिके समान श्रेष्ठ होती
है ॥ ५० ॥

श्रेष्ठं शिलाजतु ज्ञेयं यत्क्षिप्तं न वि-
शीर्यति । तोयपूर्णं कांस्यपात्रे प्रता-
नेन विवर्द्धते ॥ ५१ ॥

जो जलसे भरे हुए कांसिके पात्रमें डालनेसे एक
साथ न घुलजाय, किन्तु तंतुसे छोड़े ऐसा शिला-
जात उत्तम होता है ॥ ५१ ॥

स्निग्धः कौश्वनसंकाशः पक्वजम्बू-
फलोपमः । नूतनो गुग्गुलुः प्रोक्तः
सुगन्धिर्यस्तु पिच्छिलः ॥ ५२ ॥

चिकना, कांचनके समान पीतवर्ण, पक्के जामु-
नके फलके समान कांतिवाला, सुगन्धित और
पिच्छिल ऐसा गुग्गुलु नवीन श्रेष्ठ होता है ॥ ५२ ॥

शुष्को दुर्गन्धिकश्चैव वर्णान्यत्वसु-
पागतः । गुग्गुलुः स तु विज्ञेयः पुरा-
णो वीर्यवर्जितः ॥ ५३ ॥

सूखा, दुर्गन्धित, जिसका वर्ण बदल गया हो
अर्थात् जिसका रंग बुरा हो गया हो ऐसा और
पुराना गुग्गुलु गुणरहित जानना ॥ ५३ ॥

शशिकान्तनिभ श्रेष्ठं तथा स्फटि-
कसन्निभम् । कर्पूरं स्निग्धमत्यर्थं सु-
द्रुतुल्या हरेणुका ॥ ५४ ॥

चन्द्रमाकी कांतिके समान स्वच्छ और
स्फटिकमणिके समान श्वेत तथा अत्यंत चिकना
ऐसा कर्पूर उत्तम होता है । और रेणुका-मूंगके
समान उत्तम होती है ॥ ५४ ॥

समं शुभ्रं गुरु स्निग्धं फलं जात्याः
प्रशस्यते । एला सूक्ष्मफला श्रेष्ठा
प्रियंगुः श्यामपांडुरा ॥ ५५ ॥

समान, शुभ्र, भारी और चिकना ऐसा जायफल उत्तम
होता है । तथा इलायची-सूक्ष्म दानोकी उत्तम होती

है और फूलप्रियंगू-श्याम और पाण्डुवर्णका उत्तम होता है ॥ ५५ ॥

**मुरा पीता वरा प्रोक्ता सुस्तमानूप-
सम्भवम् ।**

मुरामांसी अर्थात् कपूरकचरी-पीलेरंगकी उत्तम होती है । और नागरमोथा अनूपदेशमें उत्पन्न हुआ श्रेष्ठ होता है ।

**अविकारा लघुदीर्घा लता कस्तूरि-
का मता ॥ ५६ ॥**

लताकस्तूरी-हलकी और लम्बाकृतिवाली निर्विकार होती है ॥ ५६ ॥

**सरलत्वक्छाविज्ञेया नलिका स्निग्धपि-
च्छिला । सुगन्धि गुरु रूक्षश्च सुरदारु
प्रकीर्तितम् ॥ ५७ ॥**

नली-सरलकी छालके समान, स्निग्ध और पिच्छिल उत्तम होती है । देवदारु-सुगन्धित, भारी और रूक्ष उत्तम होती है ॥ ५७ ॥

**सरलं स्निग्धमत्यर्थं सुगन्धि च म-
नोहरम् । मृगशृङ्गनिभं कुष्ठं शिरो-
च्छेदे वचारुणा ॥ ५८ ॥**

वृषसरल-अत्यन्त स्निग्ध, सुगन्धित और मनोहर ऐसा उत्तम होता है । कूठ-हिरनके सींगके समान उत्तम होता है । वच-छेदनेमें लाल उत्तम होती है ॥ ५८ ॥

**कनिष्ठांगुलिसंकाशमुत्तमं ग्रन्थिपण-
कम् । सुसूक्ष्मकेसरा स्निग्धा मांसी
पिङ्गजटाकृतिः ॥ काकतुण्डनिभः
स्निग्धः श्रेष्ठः स्यादगुरुगुरुः ॥ ५९ ॥**

कनिष्ठा अंगुलीके समान गाठिवन उत्तम होता है । सूक्ष्मकेसरसे युक्त, स्निग्ध, पीली जटावाली ऐसी वालच्छड उत्तम होती है । अगर-कौंवकी चोचके समान, धिकनी और भारी ऐसी उत्तम होती है ॥ ५९ ॥

**वर्चुला मांसला स्वच्छा श्रेष्ठा पूतिः
प्रकीर्तिता । सुगन्धि शक्तिं चोशीरं
कीर्तितं गन्धकर्मणि ॥ ६० ॥**

गोल, गुदाल और निर्मल ऐसी जवादिकस्तूरी उत्तम होती है । खस-सुगन्धित और शीतल है । इसको गंधकर्ममें प्रयोग करना चाहिये ॥ ६० ॥

**वराहमूर्धवत्कन्दो वाराहीकन्दसंज्ञि-
तः । भिषजा तदलाभे तु चर्मका-
रालुको मतः ॥ ६१ ॥**

सूअरके शिरके समान वाराहीकन्द उत्तम होता है । वैद्य लोग उसके अभावमें चर्मकारालुको प्रयोग करते हैं ॥ ६१ ॥

**सूक्ष्मास्थिमांसला पथ्या सर्वकर्म-
णि सम्मता । क्षिप्ताम्भसि च या
मज्जेद्रल्लातकवरा च सा ॥ ६२ ॥**

छोटी गुठलीवाली और बहुत गूदेवाली हरल सब कार्योंमें उत्तम होती है । जिसकी गिरी जलमें डालनेसे डूबजाय ऐसा भिलावा उत्तम होता है ॥ ६२ ॥

**एतेषामपरेषाश्च नवता प्रवरो गुणः ६३
ये उपर्युक्त औपधियों अथवा अन्यान्य औपधियों
नवीन ही विशेष गुणवाली होती है ॥ ६३ ॥**

**अक्षोटकश्च वातामं मुञ्जातो विषु-
कस्तथा । पारावतं पीलुफलं लव-
लीफलमेव च ॥ नवान्येतानि सर्वा-
र्वाणि प्रसिद्धान्युक्तनामभिः ॥ ६४ ॥**

अखरोट, वादाम, मुञ्जातकफल, विषुक, पारावत, पीलुकूल और लवलीफल ये सब उक्तनामोंसे प्रसिद्ध हैं । ये सब नवीन ही श्रेष्ठ होते हैं ॥ ६४ ॥

प्रतिनिधि ।

**शकृद्रसो गोमये स्याच्चन्दने रक्त-
चन्दनम् । सिद्धार्थे सर्षपः प्रोक्तः सै-
न्धवं लवणे मतम् ॥ ६५ ॥**

जहाँ गोबर लिखा हो वहाँ गोबरका रस लेना चाहिये । जहाँ चंदन लिखा हो वहाँ लालचंदन लेना चाहिये । जहाँ सिद्धार्थ लिखा हो वहाँ सरसो लेनी चाहिये और जहाँ लवण लिखा हो वहाँ सैधानमक ही लेना चाहिये ॥ ६५ ॥

मधु यत्र न विन्देत तत्र जीर्णगुडो
मतः । क्षीराभावे भवेन्मौद्गो रसो
मासूर एव वा ॥ ६६ ॥

जहाँ शहद न मिले वहाँ पुराना गुड लेना चाहिये
तथा दूधके अभावमें मूँग अथवा मासूरका चूप लेना
चाहिये ॥ ६६ ॥

वाराहकान्तकाभावे स्तम्भने विक-
सा मता । चित्रकाभावतो दन्ती
क्षारः शिखरिजोऽथवा ॥ ६७ ॥
दद्यात्संकुष्ठकं वैद्यः सुवर्णक्षीर्यभा-
वतः । अभावाद्म्लवेतस्य पक्कं चुक्रं
प्रयोजयेत् ॥ ६८ ॥

वाराहकांताके अभावमें मजीठ लेना चाहिये ।
चीतेके अभावमें दंती अथवा चिरचिटेका खार लेना
चाहिये । सत्यनाशी कटेरी (चोक) के अभावमें
कूठ लेना चाहिये । और अमलवेतके अभावमें पक्क
चुक प्रयोग करना चाहिये ॥ ६७ ॥ ६८ ॥

अर्कपर्णादिपयसो ह्यभावे तद्रसो म-
तः । रसाञ्जनस्याभावे तु सम्यग्दार्वा
प्रयुज्यते ॥ ६९ ॥

आकके पत्तोंके दूध आदिके अभावमें उनके पत्तों-
का रस लेना चाहिये और रसौतके अभावमें दारुह-
लदी लेनी चाहिये ॥ ६९ ॥

नीलोत्पलस्याभावे तु कुमुदं देयमि-
ष्यते । रक्तचन्दनकाभावे नवोशीरं
विदुर्बुधाः ॥ ७० ॥

नीलोत्पलके अभावमें कुमुद लेना चाहिये और
लालचन्दनके अभावमें नवीन खस लेनी चाहिये ७० ॥

श्रीखण्डचन्दनाभावे देयं कर्पूरमि-
ष्यते । कर्पूराभावतो देयं ग्रन्थिपर्ण
विशेषतः ॥ ७१ ॥

श्रीखण्डचन्दनके अभावमें कर्पूर लेना चाहिये ।
तथा कर्पूरके अभावमें विशेषकर गठिवन लेना
चाहिये ॥ ७१ ॥

रुचकाभावतो दद्याल्लवणं विडमुत्त-
मम् । शल्लक्यभावतो देयं शिखि-
पिच्छञ्च तद्गुणम् ॥ ७२ ॥

कालेनमकके अभावमें विडनमक लेना चाहिए ।
और शल्लकीके अभावमें तद्गुणसम्बन्धी मयूरपिच्छ
लेनी चाहिये ॥ ७२ ॥

अभावे हिंशुपत्र्यास्तु हिंशु तद्गुणकार-
कम् । ऊषराभावतो देयं लवणं पांशु-
पूर्वकम् ॥ ७३ ॥

हींगपत्रीके अभावमें समान गुणवाली होनेसे हींग
लेनी चाहिये । खारीनमकके अभावमें रेहगवानमक
लेनी चाहिये ॥ ७३ ॥

अन्योन्याभावतोऽन्योन्यं देयं वैद्येन
जानता । सिताभावे भवेत् खण्डः
शाल्यभावे च षष्टिकः ॥ ७४ ॥

अन्यान्य द्रव्य जो कि यहाँ नहीं कहे है उनके
अभावमें उन्हींके समान गुणोंवाले अन्यान्य द्रव्य वैद्य-
को विचार कर लेने चाहिये । मिश्रीके अभावमें खॉड
लेनी चाहिये और शालिधानोंके अभावमें साठीधान
लेने चाहिये ॥ ७४ ॥

सुवर्णमथवा रूप्यं योगे यत्र न लभ्य-
ते । तत्र लोहेन कर्माणि भिषक्कुर्या-
द्विचक्षणः ॥ ७५ ॥

जहाँ सुवर्ण अथवा चांदी नहीं मिले वहाँ वैद्यको
लोहेके द्वारा कार्य करना चाहिये ॥ ७५ ॥

तालीशपत्राभावे तु स्वर्णताली प्र-
शस्यते । अभावात्रागपुष्पस्य पद्मके-
सरमुच्यते ॥ ७६ ॥

तालीसपत्रके अभावमें सुवर्णतालीस लेना चाहिये
तागकेशरके अभावमें कमलकेशर लेनी चाहिये ७६ ॥

सौराष्ट्र्यभावतो ज्ञेया कठिनी .गुण-
कारिणी । अभावे लक्ष्मणायास्तु
नीलकण्ठशिखा मता ॥ ७७ ॥

फिटकरीके अभावमें समान गुणवाली होनेसे
सेलखड़ी अथवा खडियामिट्टी लेनी चाहिये । लक्ष्म-
णाके अभावमें मयूरशिखाकी जड़ लेनी चाहिये ॥
७७ ॥

यूथिकाभावतो ज्ञेया जाती तद्गुण-
कारिणी । मयूराऽभावतो दद्याच्छ-
शहंसाखुकानपि ॥ ७८ ॥

जुहीके अभावमें समान गुण करनेवाली चमेली
लेनी चाहिये । मोरके अभावमें खरगोस, हंस अथवा
मूसा लेना चाहिये ॥ ७८ ॥

कंकोलाऽभावतो जाती शस्ता त-
स्या अभावतः । लवङ्गकुसुमं देयं य-
तो दृष्टं तदर्थकृत ॥ ७९ ॥ बन्धूका-
ऽभावतो देयं पुष्पं पुन्नागसम्भवम् ।
बकुलाभावतो देयं कहूलारोत्पलपंक-
जम् ॥ ८० ॥

कंकोलेके अभावमें जायफल लेना चाहिये । जाय-
फलके अभावमें लौंग लेनी चाहिये । दुपहरियके
फलके अभावमें नागकेशर लेनी चाहिये । मौलश्रीके
अभावमें लाल कुमुद, उत्पल और कमल लेना
चाहिये ॥ ७९ ॥ ८० ॥

माक्षिकस्याप्यभावे तु प्रदद्यात्स्वर्ण-
गैरिकम् । अभावे सोमराज्यास्तु प्रपु-
त्राटफलं मतम् ॥ ८१ ॥

सोनामाखीके अभावमें सोनागेरू लेना चाहिये ।
वावचीके अभावमें पमारके फल लेने चाहिये ॥ ८१ ॥

दारुहरिद्राभावे तु हरिद्रा दीयते
बुधैः । अहिंसाया अभावे तु मान-
कन्दः प्रकीर्तितः ॥ ८२ ॥

दारुहलदीके अभावमें हलदी लेना चाहिये । अहिंस
(हींस) के अभावमें मानकद लेना चाहिये ॥ ८२ ॥

तुम्बुरुतैलाभावे तु हितमारुष्करं य-
दि । यदा न पौष्करं मूलं कुष्ठं योज्यं
तदा बुधैः ॥ ८३ ॥

तुम्बुरुके तेलके अभावमें भिलावे लेने चाहिये ।
जब पोहकरमूल न मिले तो वैद्यको कूठ लेना
चाहिये ॥ ८३ ॥

लाङ्गल्यभावतो वह्निपत्रीं दद्याद्विष-
ग्वरः । असम्भवे तु द्राक्षायाः का-
श्मर्याः फलमिष्यते ॥ ८४ ॥

कलिहारीके आभावमें अग्निपत्री लेनी चाहिये,
दाखके अभावमें कुम्भेरका फल लेना चाहिये ॥ ८४ ॥

तयोरभावेपुष्पन्तु मधूकस्य समीरि-
तम् । न भवेदाडिमं यत्र वृक्षाम्लं तत्र-
योजयेत् ॥ ८५ ॥ चविकागजपिप्प-
ल्यौ पिप्पलीमूलवत्स्मृते । अभावे पृ-
श्निपर्णास्तु सिंहपुच्छी विधीयते ८६ ॥

इन दो नोंके आभावमें अर्थात् जहाँ दाख और
कुम्भेरका फल ये दोनो न मिले तो महुवेके फूल
लेने चाहिये । जहाँ अनार नहीं मिले वहाँ विषां-
बिल (तित्तिडीक) लेना चाहिये । चव्य और
गजपीपलके अभावमें पीपलामूल लेना चाहिये ।
और पृश्निपर्णीके अभावमें सिंहपुच्छी लेनी
चाहिये ॥ ८५ ॥ ८६ ॥

मूर्वाभावे त्वचं ग्राह्यं लताजिङ्गिन्य-
सम्भवे । न तं तगरपादी स्यादभावे
कुष्ठमिष्यते ॥ ८७ ॥

मूर्वाके अभावमें जिगीनीकी छाल लेनी चाहिये।
और तगरके अभावमें कूठ लेना चाहिये ॥ ८७ ॥

युञ्जातः पश्चिमे ख्यातो ग्राह्यं ताल-
स्य मस्तकम् । भल्लातकासहत्वे तु
रक्तचन्दनमिष्यते ॥ ८८ ॥

युञ्जात इस नामसे पश्चिममें जो प्रसिद्ध है उसके
अभावमें तालका मस्तक लेना चाहिये । तथा भिल्ला-
तके अभावमें लालचन्दन लेना चाहिये ॥ ८८ ॥

रसवीर्यविपाकाद्यैः समं द्रव्यं वि-
चिन्त्य च । युञ्ज्यात्तद्विधमन्यन्तु द्र-
व्यज्ञानविशारदः ॥ ८९ ॥

इसके शिवाय अन्यान्य औषधियोंकी जो
प्रतिनिधि नहीं कही है, उनकी उन ही औषधि-
योंके रस, वीर्य और विपाक आदिके तुल्य
अन्य औषधियोंको जाननेमें चतुर वैद्य विचार कर
उसको प्रयोगमें डाले ॥ ८९ ॥

पयः सर्पिः प्रयोगे च गव्यमेव प्रश-
स्यते । मूत्रे गोमूत्रमप्येवं विशेषो यत्र
नेरितः ॥ ९० ॥

जहाँ दूध अथवा घृत ऐसा लिखा हो वहाँ गायका दूध और घृत लेना चाहिये । एवं जहाँ केवल मूत्र शब्द लिखा हो वहाँ गोमूत्र लेना चाहिये ॥ ९० ॥

सारः स्यात्खदिरादीनां निम्बादीनां त्वचस्तथा । फलं तु दाडिमादीनां पटोलादेश्छदस्तथा ॥ ९१ ॥

खदिरादि वृक्षोंका सार लेना चाहिये । नीम आदि वृक्षोंकी छाल लेनी चाहिये । अनार आदिके फल लेने चाहिये और पटोलादिके पत्ते लेने चाहिये ॥ ९१ ॥

महान्ति यानि मूलानि काष्ठगर्भाणि यानि च । तेषान्तु वल्कलं ग्राह्यं ह्रस्वमूलानि कृत्स्नशः ॥ ९२ ॥

जिन वृक्षोंकी जड़ बहुत बड़ी बड़ी और छालके लिपटी हुई है, उनकी छाल लेनी चाहिये । जिनकी छोटी जड़ हो उनका सर्वांग लेना चाहिये ॥ ९२ ॥

कूर्मपृष्ठा नरास्थीव मध्ये निम्ना समाचला । दुर्गन्धा शब्दसंयुक्ता शिला नेष्ठा तु पेषणे ॥ ९३ ॥

कछुएकी पीठके समान, मनुष्यके कपालके समान, बीचमे नीचा एक समान और स्थिर ऐसा खरल उत्तम होता है । दुर्गन्धित और जिसमे पेषण करते समय शब्द हो ऐसा खरल उत्तम नहीं होता ९३ इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां द्रव्यगुणाधिधिकार समाप्त ॥ ८४ ॥

अथ गणपाठाधिकार ।

स्थिरापुनर्नवैरण्डशंखसर्षपजीवकाः । श्वदंष्ट्राभिरुलांगूलीविदारीहंसपादिकाः ॥ १ ॥ बृहत्यौ पृश्निपर्णी च विश्वेदेवा महाबलाः । सहाश्रुगालवित्रा

च वृश्चिकाली महासहा ॥ शोषगुल्मानिलश्वासकासपित्तहरो गणः ॥ २ ॥

शालिपर्णी, पुनर्नवा, अंडका जड़, शंख या शंख-पुष्पी, सरसों, जीवक, गोखुरु, जतावर, कलिहारी, विदारीकंद, हंसपर्दी, बड़ी कटेरी, कटेरी, प्रश्निपर्णी, गोरन, सहदेवी, पियावांसा, पिठवनका भेद, विछाटी और मापपर्णी इन सब औषधियोंके समुदायको स्थिरादिगण कहते हैं । यह स्थिरादिगण-शोष, गुल्म, वात, श्वास, खांसी और पित्तको दूर करता है ॥ २ ॥

आरग्वधो निशांबष्टा करकस्तापसद्रुमः । शुद्धश्वेता महाश्वेता वृश्चिकालीत्ययं गणः ॥ व्रणकुष्ठविषश्वासकृमिमेदःकफापहः ॥ ३ ॥

अमलतास, हल्दी, मोइया, करंज, हिंगोट, शुद्ध-श्वेता, महाश्वेता और वृश्चिकाली इन सब औषधियोंके समुदायको आरग्वधादिगण कहते हैं । यह आरग्वधादिगण-व्रण, कुष्ठ, विष, श्वास, कृमि, मेद और कफको नष्ट करता है ॥ ३ ॥

सुरसे कासमर्दश्च फणिज्जार्जकभूस्तृणम् । निर्गुण्डी सुरसा फञ्जी कुलाहलसुगन्धकौ ॥ ४ ॥ क्षवकः कालमालश्च क्षवपुष्टिः प्रचीवलः । विडङ्गः काकमाची च मरिचो मूषकर्णिका ॥ ५ ॥ सुपर्णी चेति वर्गोऽयं कृमिश्लेष्मविनाशनः । कासारुचिप्रतिश्यायश्वासहा व्रणशोधनः ॥ ६ ॥

श्वेततुलसी, कालीतुलसी, कसौदी, वनतुलसी, सफेद वनतुलसी, भूस्तृण, निर्गुण्डी, साधारण तुलसी, भारंगी, कुलाहल (सुइकदंब), सुगन्धक (बृहद्रन्धतृण), नकलिकनी, कालमाल, काले पत्तोंकी छोटी वनतुलसी (गूमा) कौआठोड़ी, वायविडंग, मकोय, मिरच, मूसाकर्णी और सुपर्णी (पनडी) इन सब औषधियोंके समुदायको सुरसादिगण कहते हैं । यह वर्ग-कृमि, कफ, खांसी, अरुचि, प्रतिश्याय और श्वासको दूर करता है तथा व्रणको शोधन करनेवाला है ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥

कुष्ठकं त्रिफलाराठं वृश्चिकाग्निः स्तु-
हीपयः । वातारिप्यपाभागो भेदो-
ऽर्शोऽश्मरिमेहहा ॥ ७ ॥

कूठ, त्रिफला, हींग, विछाटी, चीता, थूहरका दूध,
अंडकी जड़ और चिरचिटा इन सब औषधियोंके
समुदायको कुष्ठदिगण कहते हैं। यह—मेद, बवासीर,
पथरी और प्रमेहको दूर करता है ॥ ७ ॥

पिप्पल्याग्निवचावासा- कालश्रन्धिक-
मुस्तकम् । भाङ्गीमूर्वा महानिम्बं पा-
ठा यष्टी च सर्षपः ॥ हिंशुतिक्ता विड-
ङ्गश्च वातश्लेष्महरो गणः ॥ ८ ॥

पीपल, चीता, वच, अड्डसा, गठिवन, नागरमो-
था, भारंगी, मूर्वा, बकायन, पाढ, मुँलठी, सरसों,
हींग, कुटकी और वायविडंग इन सब औषधियोंके
समुदायको पिप्पल्यादिगण कहते हैं। यह वात
कफको दूर करता है ॥ ८ ॥

एला चक्राह्वकौन्तीत्वकूपत्रोमाहरो-
चकाः । चण्डाश्वफलपुत्रागदारुसर्ज-
रसोनतम् ॥ ९ ॥ शकृच्छुक्तिदधिध्या-
मकुन्दरुह्याग्रहस्तजाः । एलादिपिड-
काकण्डूविषानिलकफान्तकृत् ॥ १० ॥

इलायची, पमार, रेणुका, दालचीनी, तेजपात,
रोमाह्व (पेडस), लालप्याज, भटेउर, पीपलफल,
पुत्रागवृक्ष, देवदारु, राल, तगर, गोबर, काँजी, दही,
रोहिसतृण, कुन्दरु और एरंडवृक्ष, इन सब औषधि-
योंको एलादिगण कहते हैं। यह गण—पिडिका, खुजली,
विष, वायु और कफको नष्ट करता है ॥ ९ ॥ १० ॥

वचाजलजदेवाह्वानागरातिविषाभयाः ।
हरिद्राद्रययष्ट्याह्वकलशीकुटजोद्भवा
॥ ११ ॥ वचाहरिद्रादिगणौ वाताती-
सारनाशनौ । भेदः कफाह्वयवनस्त-
न्यदोषनिबर्हणौ ॥ १२ ॥

वच, नागरमोथा देवदारु, सोंठ, अतीम, हरड, हल्दी,
दारुहल्दी, मुँलठी, पृश्निपर्णी और इन्द्रजौ इन
औषधियोंके गणको वचादिगण तथा ही

गण कहते हैं। ये दोनों गण वातातिसारको नष्ट
करते हैं तथा मेद, कफ, आमवात और स्तनोके दूधके
रोगोको दूर करते हैं ॥ ११ ॥ १२ ॥

मूर्वा घण्टामृताराठपाठाभूत्रिम्बकू-
लकाः । करञ्जवरशैरीयसुषवीसक-
ठिल्लकाः ॥ मेहकुष्ठज्वरच्छर्दिविषश्ले-
ष्महरो गणः ॥ १३ ॥

मूर्वा, कटपाढल, गिलोय, हींग, पाढ, चिरायता, पटो-
लपात, करञ्ज, अदरख, पियावांसा, करेला और वनक-
रेला इन सब औषधियोंके समुदायको मूर्वादिगण
कहते हैं। यह गण—प्रमेह, कुष्ठ, ज्वर, वमन,
विषबाधा और कफको नष्ट करता है ॥ १३ ॥

सालस्यन्दनकालीयधवसर्जार्जुनास-
नाः । शिरीषशिशपाभूर्जखादिरं चन्द-
नद्रयम् ॥ १४ ॥ कदरो वाजिकर्णश्च
करञ्जः केम्बकोऽगुरुः । गणोऽयं कफ-
पांडुत्वकुष्ठमेहविनाशनः ॥ १५ ॥

शाल, तिनिश, कलम्बक, धौ, पियासाल, अजुन,
विजयसार, शिरस, सीसम, भोजपत्र, खैर, चन्दन,
लालचन्दन, सफेदखैर, अश्वकर्णशाल, करंज, केमुक
और अगर इन सब औषधियोंके समूहको शालादि
गण कहते हैं। यह गण—कफ, पांडुता, कुष्ठ और
प्रमेह इन सबको नष्ट करता है ॥ १४ ॥ १५ ॥

वारुणी तगराभीरुविल्वजातीवि-
षाणिकाः । भैरयबृहतीयुग्मदर्भपूती-
कशिशपाः ॥ १६ ॥ जयाग्निमन्थ-
विल्वाग्निनक्तमालाग्निभोरटाः । व-
गोऽन्तर्विद्रधिश्लेष्ममेदोगुल्मशिरो-
त्तिनुत् ॥ १७ ॥

इन्द्रायण, तगर, शतावर, बेल, जायफल, काकडा-
शिगी, भैरय दोनों प्रकारकी कटेरी, डाभ, दुर्गन्ध-
करज, सीसम, मेथी, अरणी, चीता, करंज और मोरठ
इन सब औषधियोंका गण—अन्तर्विद्रधि, कफ, मेद,
गुल्म और शिरकी पीडाको दूर करता है ॥ १६ ॥ १७ ॥

वीरवृक्षोऽग्निमन्थश्च काशवृक्षादनी-
कुशाः । मोरटेन्दीवरीसूर्यभक्तादण्ड-

कगोक्षुराः ॥ १८ ॥ वसुको वसिरो
दर्भसैरेयाश्मकभेदकाः । अश्मरी

शर्करा कृस्नमारुतात्तिहरो गणः १९ ॥

वीरवृक्ष, अरणी, कांस, बांदा, कुशा, मोरट, गता-
वर, हुलहुल, दण्डक, गोखुरु, आक, चिरचिटा, डाम,
नीलेफूलका पियावांसा और पोपाणभेद इन सब
औषधियोंका समूह अश्मरी, शर्करा और सब प्रकार
के वायुके विकारोंको दूर करता है ॥ १८ ॥ १९ ॥

रोध्रद्वयप्लवाशोकजम्भशैलेयवालु-

काः । कदम्बो जिङ्गिनी चैव श्रीप-
र्णी च बहुस्रवा ॥ २० ॥ वर्गो लो-

ध्रादिको नाम्ना कफभेदोविशेष-

णः । पानदोषहरो बल्यः स्तम्भी

सर्वविषापहः ॥ २१ ॥

लोध, सफेदलोध, केवटीमोथा, अशोक, जम्भीरी
नींबू, भूरिछरीला, रेणु, कदम, जिगिनी कुम्भेर और
शालई इन सब औषधियोंके समुदायको लोध्रादिगण
कहते हैं । यह वर्ग-रूफ और भेदको दूर करता है ।
मद्य तथा पानके दोषोंको हरनेवाला, बलकारक,
स्तम्भक और सब प्रकारके विषोंको दूर करता
है ॥ २० ॥ २१ ॥

अर्कालकैन्दुपुष्पी च करञ्जो नागद-

न्तिका । रास्ना मधुकमायूरपादा

एष गणः शुभः ॥ भेदः कफाढ्यः पव-

नस्तन्यदोषविनाशनः ॥ २२ ॥

आक, सफेद आक, कलिहारी, करंज, नागदन्ती,
रास्ना, मुलैठी और मयूरपादा इन सब औषधियोंके
समुदायको अर्कादिवर्ग कहते हैं । यह गण-भेद, कफ,
आमवात और स्तनके दूधके दोषको दूर करता
है ॥ २२ ॥

श्यामा दन्ती द्रवन्ती च यवाश्या-

मामृताः । सप्तला शंखिनी

श्वेता राजवृक्षः सतिल्वकः ॥ २३ ॥

कम्पिल्लकः करञ्जश्च हेमक्षीरित्ययं

गणः । उदावत्तोदरानाहविषगुल्म-

विनाशनः ॥ २४ ॥

निसोत, दन्ती, द्रवन्ति, मूसाकर्णी, यवेची, काला
निसोत, गिलोय, हरड, सातला, शंखपुष्पी, फटकरी,
अमलतास, लोध, कवीला, करंज और सत्यानासीकटेरी
इन सब औषधियोंके समुदायको श्यामादिगण कहते
हैं । यह गण उदावर्त्त, उदररोग, आनाह, विष और
गुल्मको नष्ट करता है ॥ २३ ॥ २४ ॥

वृहती धातकी पाठा यष्टीमधुकलि-

ङ्गकाः । दीपनीयो वृहत्यादिः कृच्छ्र-

दोषत्रयापहः ॥ २५ ॥

वडी कटेरी, धायके फूल, पाठ, मुलैठी और इन्द्रजौ
इन सब औषधियोंके समुदायको वृहत्यादिगण कहते
हैं । यह गण अग्निदीपक, मूत्रकृच्छ्र और त्रिदोषको
नष्ट करता है ॥ २५ ॥

पटोलं चन्दनं मूर्वा पाठा नित्तामृता

घनः । पित्तश्लेष्मानिलच्छर्दिज्वरकण्डू-

विषापहः ॥ २६ ॥

परवल, चन्दन, मूर्वा, पाठ, कुटकी, गिलोय और
नागरमोथा इन सब औषधियोंका समुदाय पित्त, कफ,
वायु, वमन, ज्वर, खुजली और विषको दूर करता
है ॥ २६ ॥

काकोली मधुकं शृङ्गी भेदे द्वे जीव-

कर्षभौ । अपौंडरिकं मृद्रीका ऋद्धिवृ-

द्धी तुगासहा ॥ २७ ॥ पयस्या पन्न-

के छिन्नेत्येष वर्गोऽतिबृंहणः । स्तन्य-

श्च जीवनीवृक्षः पित्तास्त्रानिलनाश-

नः ॥ २८ ॥

काकोली, मुलैठी, काकडाशिगी, भेदा, महामेदा,
जीवरू, ऋषभक, पुण्डेरिया, दाख, ऋद्धि, वृद्धि,
वंशलोचन, खिरैटी, क्षीरकाकोली, पद्माख, गिलोय
और जीवन्ती इन सब औषधियोंके समूहको काको-
ल्यादिवर्ग कहते हैं । यह वर्ग-अत्यन्त पुष्टिकारक, स्त-
नोमें दूधको उत्पन्न करनेवाला, एवं जीवन प्रदान करने-
वाला, पित्त और रक्तको दूर करनेवाला है ॥ २७ ॥ २८ ॥

उषसैन्धवकाशीसद्वयहिंशुशिलाजतु ।

तुत्थकंचेति भेदघ्नः शर्कराश्मरिहृ-

णः ॥ २९ ॥

खारी, सैधानमक, कसीस, हीराकसीस, हींग, शिलाजीत और तूतिया इन सब औषधियोंका समुदाय मेद, शर्करा और अश्मरीको नष्ट करता है ॥२९॥

सारिवा पद्मकोशीरं मधुकं चन्दनद्वयम् । काश्मरी मधुकं चेति सारिवादिरयं गणः ॥ ३० ॥ रक्तपित्तं निहन्त्याशु तृष्णां चातिप्रमाथिनीम् । तीव्रपित्तज्वरामर्द-सर्वदाहविनाशनः ॥ ३१ ॥

सारिवा, पद्माख, खस, मुलैठी, चन्दन, लालचन्दन, कुम्भेर और महुवा इन सब औषधियोंके समुदायको सारिवादिगण कहते हैं । यह गण-रक्त, पित्त, भयंकर तृषा, तीव्रपित्तज्वर, अंगोका दूटना, दाह और अन्यान्य सब प्रकारके पित्तरोगोंको दूर करता है ॥ ३० ॥ ३१ ॥

अञ्जनं फलिनी मांसी पद्मोत्पलरसाञ्जने । एला मधुकनागाद्वा विषान्तर्दाहपित्तनुत ॥ ३२ ॥

अञ्जन, फूलप्रियंगू, वालछड, कमल, कमोदनी, रसौत, इलायची, मुलैठी और लक्ष्मणाकन्द इन सब औषधियोंके समुदायको अञ्जनादिगण कहते हैं । यह वर्ग-विषवाधा, अन्तर्दाह और पित्तको नष्ट करता है ॥ ३२ ॥

परुषो दाडिमं द्राक्षा काश्मरी काकजं फलम् । राजादनं सधात्रीकं कतकेन समन्वितम् ॥ ३३ ॥ परुषकादिको नाम्ना गणो वातोमयापहः । हृद्यो रुचिप्रदस्तृष्णामूत्रदोषविनाशनः ॥ ३४ ॥

फालसा, अनार, दाख, कुम्भेर, काकजफल, खिरनी, आमले और निर्मलीफल इन सब औषधियोंके समुदायको परुषकादिवर्ग कहते हैं । यह परुषकादिवर्ग वातरोगोंको नष्ट करनेवाला, हृदयको हितकारी, रुचिकारक, तथा तृषा और मूत्रके विकारोंको दूर करता है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

प्रियंगु-समांगा-धातकीलोध्रपुत्रा-गचन्दनकुचन्दनमोचरसाञ्जनकुम्भी-

कस्रोतोऽञ्जनपद्मकेसरयोजनवल्लयो दीर्घमूला चेति ।

फूलप्रियंगू, लज्जावन्ती, धायके फूल, लोध, पुत्रांग, चन्दन, लालचन्दन, मोचरस, अञ्जन, जलकुम्भी, सफेद अञ्जन, कमलकेशर, मजीठ और शालिपर्णी इनको प्रियंग्वादिगण कहते हैं ।

अम्बष्ठा धातकी लोध्रसमंगापद्मकेसरम् । मधुकारलुबिल्वश्च गणो मुनिभिरीरितः ॥ ३५ ॥

पाठ, धायके फूल, लोध, मजीठ, कमलकेशर, मुलैठी, अरलु और बेल इन सब औषधियोंको अम्बष्ठादिगण कहते हैं ॥ ३५ ॥

प्रियंग्वम्बष्ठकादी च पक्वातीसारनाशनौ । सन्धानीयौ हितौ पित्ते व्रणानां चातिरोपणौ ॥ ३६ ॥

ऊपर जो प्रियंग्वादिगण कहा है वह और यह अम्बष्ठकादिगण ये दोनों पक्वातिसारको नष्ट करते हैं । एवं दूटे हुए हाडको जोड़नेवाले, पित्तमे हितकारी और व्रणको भरनेवाले हैं ॥ ३६ ॥

न्यग्रोधोडुम्बराश्वत्थमधुकप्लक्षतिन्दुकाः । प्रियालवदरीपार्थनन्दिवृक्षाम्लजम्भलाः ॥ ३७ ॥ पलशोऽरुष्करः श्वेतः लोध्रजम्बूरयं गणः । पित्तासृद्धमेहलुद्घ्नयो योनिदाहनिवारणः ३८ ॥

वड, गूलर, पपिल, महुवा, पाखर, तेदू, चिरौजी, बेर, अर्जुन, नन्दीवृक्ष, जम्भीरी, ढाक, भिलावे, सफेद लोध और जामुन इन सब औषधियोंके समुदायको न्यग्रोधादिगण कहते हैं । यह न्यग्रोधादिगण-रक्तपित्त, प्रमेह और योनिके दाहको दूर करता है तथा व्रणोंको हितकारी है ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

गुडूचीनिम्बधान्याकमधुकं चन्दनान्वितम् । तृष्णादाहारुचिच्छर्दिंसर्वज्वरहरो गणः ॥ ३९ ॥

गिलोय, नीम, धनियाँ, मुलैठी और चन्दन इन सब औषधियोंके समुदायको गुडूच्यादिवर्ग कहते हैं । यह

तृषा, दाह, अरुचि, वमन और सर्वप्रकारके ज्वरोको दूर करता है ॥ ३९ ॥

उत्पलं कुमुदं पद्मं कहलारं लोहितो-
त्पलम् । मधुकं चेति पित्तास्रविप-
च्छर्दिहरो गणः ॥ ४० ॥

सफेद कमल कमादिनी, कमादिनी, कमल, लाल कमादिनी, लालकमल और मुलैठी इन सब औषधियोंके समुदायको उत्पलादिगण कहते हैं । यह गण-रक्तपित्त, विप, और वमनको दूर करता है ॥ ४० ॥

मुस्ता पाठा हरिद्रे द्वे तिक्ता हैमव-
ती वचा । द्रवन्त्यतिविषा कुष्ठं भ-
ल्लातकफलत्रयम् ॥ ४१ ॥ साम्बुष्टं
चेति वर्गोऽयं कफरोगनिषेदनः । शो-
धनः पाचनः स्तन्यो योनिदोषहरो
गणः ॥ ४२ ॥

नागरमोथा, पाठ, हलदी, दारुहलदी, कुटकी, सत्यानासी कटेरी, वच, द्रवन्ती, भतीस, कूठ, भिल्लोवे, त्रिफला और पाठ इन सब औषधियोंके समुदायको, मुस्तकादिगण कहते हैं। यह मुस्तकादिगण-कफरोगोंको नष्ट करता है। तथा शोधन, पाचन, स्तनोमें दूधको उत्पन्न करनेवाला और योनिके विकारोंको दूर करता है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

अक्षधात्र्यभया हन्ति त्रिफलाविष-
मज्वरम् ॥ चक्षुष्या दीपनी पित्तकुष्ठ-
भेहकफान्तकृत् ॥ ४३ ॥

वेहडा, आमला और हरड इन तीनों औषधियोंके समुदायको त्रिफला कहते हैं । यह त्रिफला-विषमज्वरको हरनेवाला, नेत्रोंको हितकारी, अग्नि-को दीपन करनेवाला तथा पित्त, कोठ, प्रमेह और कफको हरनेवाला है ॥ ४३ ॥

आमलक्यभया कृष्णा चित्रकश्चेत्य-
यं गणः । सर्वज्वरकफघ्नश्च भेदी दी-
पनपाचनः ॥ ४४ ॥

आमले, , पीपल और चीता इन सब औषधियोंका समूह सब प्रकारके ज्वर और कफको

नष्ट करता है । तथा भेदक, दीपन और पाचन है ॥ ४४ ॥

त्रयु ताम्रमयः शीसं हेम रूप्यश्च तन्म-
यः । वर्गश्च शूलहृद्रोगपांडुमेहगदा-
पहः ॥ ४५ ॥

रांग, तावा, लोहा, सीसा, सुवर्ण, रूपा और लोहमल इन सब औषधियोंका वर्ग-शूल, हृदयरोग, पांडुरोग और प्रमेहको नष्ट करता है ॥ ४५ ॥

लाक्षारेवतकुटजाऽश्वमारकट्फलह
रिद्राद्वयनिम्बसतच्छद्मालत्यस्त्राय-
माणा चेति ।

लाख, अमलतास, कुडुके वाज, कनेर, कायफल, हलदी, दारुहलदी, नीम, सतौना, मालती और त्राय-माण इन सब औषधियोंके समुदायको लाक्षादिवर्ग कहते हैं ।

कषायतिक्तमधुरः कफपित्तात्तिनाश-
नः । कुष्ठकृमिहरश्चैव दुष्टघ्नणविशो-
धनः ॥ ४६ ॥

यह लाक्षादिवर्ग-कपैला, कडवा, मधुर, कफ और पित्तकी पीडाको हरनेवाला, कुष्ठ और कृमिरो-गको दूर करनेवाला तथा घ्नणको शुद्ध करनेवाला है ॥ ४६ ॥

बिल्वोऽग्निमन्थः श्योनाकः श्रीपर्णी
पाटला महत् । क्षीपनं कफवातघ्नं पञ्च
मूलमिति स्मृतम् ॥ ४७ ॥

बेल, अरणी, श्योनाक, कुम्भेर और पाठर इन पांचो औषधियोंके समुदायको वृहत् पंचमूल कहते हैं । यह अग्निदीपक और कफवातनाशक है ॥ ४७ ॥

पृश्निपर्णी स्थिरा चैव बृहतीद्वयगो-
क्षुरम् । बृंहणं कफवातघ्नं पञ्चमूलं
कनिष्ठकम् ॥ ४८ ॥

पृश्निपर्णी, शालिपर्णी, कटेरी, बड़ीकटेरी और गोखुरु इन सब औषधियोंका लघुपंचमूल कहते हैं । यह लघुपंचमूल-पुष्टिकारक और कफवातनाशक है ॥ ४८ ॥

विदारी सारिवालागशृङ्गी वत्सादनी
निशा । कृच्छ्रपित्तानिलहरं वल्ली-
जं मूलपञ्चकम् ॥ ४९ ॥

विदारीकंद, सारिवा, मेडाशिगी, गिलेय और
हलदी, इन सब औषधियोंके समुदायको वल्लीजपंच-
मूल कहते हैं। यह वल्लीजपंचमूल-मूत्रकृच्छ्र और
पित्तवातको नष्ट करता है ॥ ४९ ॥

गृध्रनखी श्वदंष्ट्रा च शैरेयकरमर्दि-
का । एतच्छ्लेष्मानिलौ हन्ति कण्टकं
मूलपञ्चकम् ॥ ५० ॥

गृध्रनखी, गोखरू, दो प्रकारका पियावाँसा और
कालावाँसा, करौंदा, इनको कंटकपंचमूल कहते हैं ।
यह कफ और वायुको नष्ट करता है ॥ ५० ॥

कुशः काशद्रयं दर्भो नलश्चेति तृणो-
द्भवम् । पित्तकृच्छ्रहरं पञ्चमूलं वस्ति-
विशोधनम् ॥ ५१ ॥

कुशा, दोनोप्रकारकी काँस, डाभ और नरसल
इन पाँचोंकी जड़को तृणपंचमूल कहते हैं। यह तृण-
पंचमूल-पित्तनाशक और मूत्रकृच्छ्रके विकारोको
हरनेवाला तथा वस्तिशोधक है ॥ ५१ ॥

एतैस्तैलानि सर्पाणि प्रलेपं पानकान्य-
पि । गर्णोर्विभज्य कुर्वीत यथाविधि
भिषग्वरः ॥ ५२ ॥

वैद्योंको इन उपर्युक्त औषधियोंके गणोंके द्वारा तथा
विधिसे तेल, घृत, प्रलेप, काथ प्रभृति पृथक् पृथक्
प्रस्तुत करने चाहिये ॥ ५२ ॥

एकद्विद्रव्यहीनोऽपि क्रियायोग्यो वृ-
हद्गणः । हत्वा तु तत्समं द्रव्यमथ
योज्योऽल्पभेषजः ॥ ५३ ॥

बुद्धिमान् वैद्यको जचित है कि, यदि इन गणोमे
एक, दो औषधि नहीं मिले तो भी उसको प्रयोगमें
मिलावे अथवा उनके परिवर्तनमें उनहींके समान गुण-
वाली अन्य औषधि मिलावे या थोड़ी ही औषधियोंके
द्वारा कर्म करे ॥ ५३ ॥

इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां द्रव्यगणाधिकार
समाप्त ॥ ८५ ॥

अथ संशोधनसंशमनरसद्रव्यादीनां
वर्गाधिकारः ।

अब संशोधन और संशमन औषधियोंका
वर्णन करते हैं ।

मदनकुटज-जीमूतेक्ष्वाकुधामार्गवलो-
धकृतवेधन-सर्षप-विडङ्गपिप्पली-
करञ्ज-प्रपुत्राट-कोविदार-पीलू-क-
चूरनत-कटुम्भरारिष्टाश्वगन्धाजग-
न्धाविदुलबन्धुजीवकश्वेताशतपुष्पा-
बिंबीवचैर्वारुकचित्राश्वेत्यूर्ध्वभागह-
रा इति । तत्र कोविदारपूर्वासां फला-
नि, कोविदारादीनां मूलानि ।

मैनफल, इन्द्रजौ, नागरमोथा, चंदाल, कडवीतोम्बी,
कडवीतोरेई, लोध, सरसों, वायविडंग, पीपल, करंज,
पमार, कचनार, पीलू, कचूर, तगर, कुटकी, नीम,
असगन्ध, वनतुलसी, वेत, जियापोता, सफेद कटभी,
सौफ, कन्दूरी, वच, कडवी ककडी और कचरिया ये
सब औषधियाँ वमनके द्वारा ऊर्ध्वभागको शुद्ध कर-
ती हैं। इनमें कचनार (कोविदार) से पहले जो
औषधियाँ हैं उनके फल लेने चाहिये और कचनारसे
लेकर कचरिया (चित्रा) पर्यन्त औषधियोंकी जड़ें
लेनी चाहिये ।

त्रिवृच्छ्यामा-दन्ती-द्रवन्ती-सतला-
शंखिनी-विषाणिका-गवाक्षी छगला-
त्री-स्तुहीसुवर्णक्षीरी-चित्रक-किणि-
हीकुशकाशतिल्वक-काम्पिल्लकचम्प-
करम्यकपाटलाश्रुगहरीतक्यामलकवि-
भीतकनीलिनी-चतुरंगुल-पूतिका-
गवध-महावृक्ष-सप्तच्छदार्कज्योतिष्म-

त्यश्चेत्यधोभागहरा इति । तत्र तिल्व-
कपूर्वासां मूलानि तिल्वकादीनां
पाटलान्तानां त्वचः । कम्पिल्लकफ-
लरज इति पृगादीनामेरुण्डान्तानां
फलानि । पूतीकारग्वधयोः पत्राणि ।
शेषाणां क्षीराणीति ।

निसोत, कालानिसोत, दन्ती, द्रवन्ती, (मूसाकानी)
सातला, शंखाहुली, मेडाशिगी, गोरखककडी, नील-
बोना, थूहर, सत्यानासी कटेरी, चीता, कटभी, कुशा,
कास, लोध, कवीला, चम्पा, वकायन, पाडल,
सुपारी, हरड, आमला, वहेडा, नील, अमलतास, दुर्गन्ध
करंज, सैंड, सतवन, आक और मालकागनी ये औष-
धियाँ विरेचनके द्वारा अधोभागको शुद्ध करती
हैं। इनमे लोधसे पहली जो औषधियाँ है उनकी जड़े
लेनी चाहियें और लोधसे पाडलतक जो औषधियाँ है,
उनकी छाल लेनी चाहिये । कवीलेके फलकी रज
लेनी चाहिये । सुपारीसे अण्डतक जो औषधियाँ है
उनके फल लेने चाहिये । दुर्गन्धकरंज और अमल-
तासके पत्ते लेने चाहिये और शेष औषधियोंका दूध
लेना चाहिये ।

कोशातकीसतलाशङ्खिनीदेवदाली-
कारवल्लिका चेत्युभयतो भागहरा
एतासां स्वरसा इति ।

तोरई, सातला, शंखाहुली, वेदालडोडा और करेला
ये सब औषधिया वमन और विरेचन दोनों कार्य कर-
नेवाली हैं, इनका स्वरस लेना चाहिये ।

पिप्पलीविडङ्गापामार्गशिशुशिरीष-
सिद्धार्थकमारिच-करवीरविम्बी-गिरि-
कर्णिका-किणिही-वचाज्योतिष्मती-
करञ्जार्कालर्कलशुनातिविषाशृङ्गवेर-
तालीसतमालसुरसार्जकेंगुदीमेषशृ-
ङ्गी-मातुलङ्गीसुरुङ्गी-पीलुजातीसा-
लतालमधूकलाक्षाहिंशुलवणमद्यगो-
शकृद्रसमूत्राणि चेति शिरोविरेचना-
नि । तत्र करवीरपूर्वासां फलानि-
करवीरा दीनामर्कान्तानां मूलानि
तालीसपूर्वासां कन्दाः । ताली-

सादीनामर्जकान्तानां पत्राणि।इंगुदी-
मेषशृङ्गयोस्त्वक् । मातुलङ्गीरुङ्गी-
पीलुजातीनां पुष्पाणि । साल-
तालमधूकानां साराः । लाक्षाहिंशु-
निर्यासां । लवणानि पार्थिवविशेषाः।
मद्यमांसासवसंयोगाः । गोशकृद्रस-
मूत्रे मलाविति ।

पीपल, वायविडग, चिरचिटा, सहिजना, सिरस,
सफेद सरसो, कालीमिरच, कनेर, कन्दुरी, कोयल,
कटभी, वच, मालकागनी, करंज, आक, सफेद आक,
लहसुन, अतीस, अदरख, तालीसपत्र, तमाल, तुलसी,
वनतुलसी, हिगोट, मेडाशिगी, विजौरा, लालफलका
सहिजना, पीलू, चमेली, साल, ताड, महुआ, लाख,
हींग, लवण, मदिरा, गोवरका रस, और गोमूत्र ये सब
औषधिया शिरोविरेचन करनेवाली है । इनमें कनेरसे
जो पहले औषधिया है, उनके फल लेने चाहिये और
कनेरसे लेकर आकतक जो औषधिया है उनकी जड़ें
लेनी चाहिये । तालीसपत्रसे जो पहले औषधियां है,
उनका कंद लेना चाहिये और तालीसपत्रसे लेकर
वनतुलसीतक जो औषधिया है उनके पत्ते लेने चाहिये
हिगोट और मेडाशिगीकी छाल लेनी चाहिये। विजौ-
रानीवू, लाल सोजना, पीलू और चमेली इनके फूल
लेने चाहिये । साल, ताड और महुएका सार लेना
चाहिये । लाख और हींग यह निर्यास है (गोंद या
रस है) । लवण ये पार्थिव द्रव्य है । मद्य और मांस-
रस आसव है । गोवरका रस और गोमूत्र ये मल है।

अब इसके उपरांत संशमन औषधि-
योंका वर्णन करते हैं ।

तत्र भद्रदारुकुष्ठहरिद्रा-वरुणमेष-
शृङ्गी बलातिवलातगरार्तगलकच्छु-
राशलकी-कुबेराक्षी-वीरतरु-सहच-
राग्निमन्थ-वत्सादनी-श्वदंष्ट्राश्मभे-
द-कालर्कार्क-शतावरी-पुनर्नवाव-
सुक-वसिरकर्बूर-भाङ्गीकार्पासीवृ-
श्चिकाली-पत्तूर-वदर-यव-कोल-कु-
लित्यप्रभृति विदारिगन्धादिश्च द्वे

**चाद्ये पञ्चमूल्यौ समासेन वातसं-
शमनो वर्गः ।**

देवदारु, कूठ, हलदी, वरणा, मेढाशिंगी, खिरैटी, कंधी, तगर, पियावाँसा कौच, सालई, पाढल, वीरवृक्ष, कालापियावाँसा अरणी, गिलोय, गोखुरु, पाषाणभेद, सफेदआक, आक, शतावर, पुनर्नवा, साम्बरनमक, समुद्रनमक, कचिया, हल्दी, भारंगी, कपास, विछाटी, पतंग, बेर, जौ, बडेबेर और कुलथी इत्यादि तथा विदारीगन्धादिगणकी औषधियाँ और दोनो पंचमूल यह संक्षेपसे वातको संशमन करनेवाली औषधियोंका वर्ग कहा है ।

**चन्दनकुचन्दनद्विविरोशीरमंजिष्ठाप-
यस्याविदारीशतावरीगुन्द्राशैवाल-
कहारकोकनदोत्पलकदलीदूर्वाप्रभृ-
तिकाकोल्यादिः सारिवादिन्यग्रो-
धादिरुत्पलोदिस्तृणपञ्चमूलाभिति
समासेन पित्तसंशमनो वर्गः ।**

चन्दन, लालचन्दन, सुगन्धवाला, खस, मजीठ, क्षीरकाकोली, विदारीकन्द, शतावर, गुद्रपटेर, शिवार, लालकमोदिनी, लालकमल, कमल, केला और दूब इत्यादि तथा काकोल्यादि, सारिवादि, न्यग्रोधादि, उत्पलादि गण और तृणपंचमूल यह संक्षेपसे पित्तको शमन करनेवाली औषधियोंका वर्ग कहा है ।।

**कालीयकागुरुतैलपर्णी-कुष्ठ-हरिद्रा-
शीतशिवशतपुष्पासरलरास्नाप्रकी-
र्यौदकीर्यैगुदीसुमनःकाकादनीलाङ्ग-
लकीहस्तिकर्णमुञ्जातताललामज्जका-
दयो वल्लीकण्टकपञ्चमूल्यौ पिप्पल्या-
दिर्बृहत्यादिर्वचादिर्मुष्ककादिः सुर-
सादिरारग्वधादिरिति समासेन
श्लेष्मसंशमनो वर्गः ।**

पीलाचन्दन, अगर, तिलपर्णी, कूठ, हलदी, सैधानमक, सौफ, धूपसरल, रास्ना, रीठा, करज, हिंगोट, चमेली, घुँघुची, कलिहारी, हस्ति कर्णपलास, मुँजात, ताड और लामज्जकतृण इत्यादि औषधियाँ तथा वल्लीपंचमूल, कंटकपंचमूल, पिप्पल्यादि, बृहत्यादि, वचादि, मुष्ककादि, सुरसादि और

आरग्वधादि गण यह संक्षेपसे कफको संशमन करनेवाली औषधियोंका वर्ग कहा है ।

**काकोल्यादिःक्षीरघृतवसामज्जाशा-
लिषष्टिकयवगोधूममाषशृङ्गाटककै-
शेरुकत्रपुसैर्वारुकालाबुकालिन्दक-
कर्कारुकतकाद्यालुक-प्रियालपुष्क-
रबीजकाश्मर्यमधूकद्राक्षाखर्जूरता-
लनारिकेलक्षुविकारबलातिबलात्म-
गुप्ताविदारीपयस्यागोधुरकक्षीरक-
क्षीरमोरटमधूलिकाकूष्माण्डकादिः
समासेन मधुरो वर्गः ।**

काकोल्यादि वर्गकी औषधियाँ दूध, घी, वसा, मज्जा, शालिधान, साठीधान, जौ, गेहूँ, उडद, सिंघोड, कसेरुखीरा, ककडी, लौकी, तरबूज, खरबूज, पेठा, निर्मलीफल, आलुक, चिरौजी, कमलगट्टा, कुम्भेर, महु-एके फल, दाख, खजूर, ताड़, नारियल, ईखके विकार (ईखके रसके द्वारा बनाये हुए पदार्थ), खिरैटी, कंधी, कौँछके बीज, विदारीकन्द, दूधविदारी, गोखुरु, पंचक्षीरी वृक्ष, क्षीरमोरट वृक्ष, मुलैठी और पेठा इत्यादि यह संक्षेपसे मधुर औषधियोंका वर्ग कहा है ।

**दाडिमामलकमातुलुङ्गाघ्रातककापि-
त्थकरजर्दबदरकोलप्राचीनामलकति-
न्तिडीककोशाम्रभव्यपारेवतवेत्रफल-
लकुचाम्लवेतसदन्तशठदधितक्रसुरा-
शुक्तसौवीरक-तुषोदक-धान्याम्ल-
प्रभृतिसमासेनाम्लो वर्गः ।**

अनार, आमले, विजौरानीम्बू, अम्बाडाँ, कैथ, करौँदा, बडा बेर, पुरानाबेर, पानीआमला, इमली, कोशाम्र, भव्य, पारेवत, वेंतफल, कठल, अम्लवेंत, कमरल, दही, तक्र (छाछ), मदिरा, शुक्त, सौवीर, तुषोदक और धान्याम्ल इत्यादि यह संक्षेपसे अम्ल औषधियोंका वर्ग कहा है ।

**सैन्धवसौवर्चलविडपाक्यरोमकसा-
मुद्रकपाक्त्रिमयवक्षारोषसुवर्चिका-
दीनां समासेन लवणो वर्गः ।**

सैधानमक, कालानमक, विडनमक, पांसुनमक,

साम्भरनमक, जवटीनमक, समुद्रनमक, जवाखार, खारी और सजी इनका संक्षेपसे लवणवर्ग जानना।

पिप्पल्यादिः सुरसादिर्मधुशिप्रुमूल-
क-लशुन-सुपुंख-शीतशिवकुष्ठदेवदा-
रुहरेणुकावलगुजफलचण्डागुगुलु-सु-
स्तालाङ्गलकीशुकनासापीलुप्रभृति-
शालसारादिश्च प्रायशः कटुको वर्गः।

पिप्पल्यादि तथा सुरसादि गण-लालसहिजना, मूली, लहसून, सरफोंका, सैधव, कूठ, देवदारु, रेणुका, वावची, शिवलिङ्गी, गूगल, नागरमोथा, कलिहारी, श्योनाक और पीलू इत्यादि तथा साल-सारादिगणकी औपधियाँ यह प्रायः कटु औपधि-योका वर्ग कहा है।

आरग्वधादिर्गुडूच्यादिर्मण्डूकपर्णीवे-
त्रकरीरहरिद्राद्वयेन्द्रयववरुण-स्वाडु-
कण्टकसप्तपर्ण-बृहतीद्वय-शांखिनीद्र-
वन्ती-त्रिवृत्कृतवेधन-ककौटक-कार-
वेष्टकवात्तककरीरकरवीरसुमनःशं-
खपुष्पापामार्ग-त्रायमाणाऽशोकरो-
हिणी-वैजयन्ती-पुनर्नवावृश्चिकाली-
ज्योतिष्मतिप्रभृतीनां समासेन ति-
क्तको वर्गः।

आरग्वधादि, तथा गुडूच्यादि गण, मण्डूकपर्णी, वेत, करीर, हलदी, दारुहलदी, इन्द्रजौ, वरुना, गोखुरु, सतौना, कटेरी, बडी कटेरी, शंखाहुली, मूपाकर्णी, निसोत, कडवी तुरई, ककोडा, करेला, वैशुन, वॉसके अंकुर, कनेर, चमेली, शखपुष्पी शिव-लिङ्गी, चिराचिटा, त्रायमाण, अशोक, कुटकी, अरणी, पुनर्नवा, विछाटी और मालकांगुनी इत्यादि औपधि-योका संक्षेपसे तिक्त वर्ग जानना।

न्यग्रोधादिरम्बष्ठादिःप्रियंग्वादिर्लो-
धादिस्त्रिफलाशल्लकी-जम्बवास्त्रास्थि-
तिन्दुकादीनि कतकशाकफलपाषाण-
भेदक-वनस्पतिफलानि । आमल-
क्यादिः शालसारादिश्च प्रायशः
कोविदारकुरबकजीवन्तीचील्लीपाल-

की सुनिषण्णप्रभृतीनि नीवारचण-
कादयो मुद्गादयश्च समासेन कषायो
वर्गः ।

न्यग्रोधादि, अम्बष्ठादि, प्रियंग्वादि और लोधादि गण तथा त्रिफला, सालई, जामुन और आमकी गुठली, तेंदूआदि निर्मलीफर, सागौनके फल, पापाण-भेद, बडक फल, आमलक्यादि, सालसारादि, लालक-चन्दार, लालपियावांसा, जीवन्ती, चिल्ली, (लालवथुआ) पालक, शिरभारी इत्यादि नीवार धान, चने और मूंग आदि यह सब संक्षेपसे कषाय औपधियोंका वर्ग कहा है।

पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकशृङ्ग-
वेराम्लवेतसमरिचाजमोदाभल्लात-
कास्थिर्हिगुनिर्यासा इति दशोमानि
दीपनीयो वर्गः।

पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, अदरख, अम्ल-वेत, मिरच, अजमोद, भिलावेकी, मींग और हिग इन दश औपधियोंका यह दीपनीयवर्ग कहा है। इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां संशोधनसंशमन-रसद्रव्यादीनां वर्गाधिकार समाप्त ॥ ८६ ॥

अथर्तुचर्याधिकार ।

भूवाष्पान्मेघानिःस्यन्दात्पाकादम्ला-
ज्जलस्य च । वर्षास्वप्निबले क्षीणे कु-
प्यन्ति पवनादयः ॥ १ ॥

वर्षाक्रतुसे-पृथ्वीसेसे भाप उठनेसे, मेघोंके वर्षनेसे और जलका अम्लपाक होनेसे अग्निका बल क्षीण होजानेपर वातादि दोष कुपित होते हैं ॥ १ ॥

तरमात्साधारणः सर्वो विधिर्वर्षासु
वक्ष्यते । उदमन्थं दिवास्वापमवश्यायं
नदीजलम् ॥ व्यायाममातपं चैव
व्यवायं चात्र वर्जयेत् ॥ २ ॥

इस कारण वर्षाऋतुमें सम्पूर्ण साधारण विधिको कहते हैं । इस ऋतुमें उदमंथ (जलको मथन करना अथवा जलके द्वारा क्रीडा करनी), दिनमें शयन करना, बर्फ, नदीजल, परिश्रम, धूप और मैथुन इन सबको सेवन करना त्याग देवे ॥ २ ॥

दिव्यं कथितकूपोत्थं वाप्यं सारस-
मेव वा ॥ ३ ॥

दिव्यजल, औटायु हुआ जल, कुएँका जल, बाव-
डीका जल और सरोवरका जल सेवन करे ॥ ३ ॥

प्रावृषि व्याकुले वह्नी भोज्यमक्लेदि
वातजित । परिशुष्कं लघु स्निग्धमु-
ष्णाम्ललवणश्च यत् ॥ ४ ॥

वर्षा ऋतुमें अग्निके व्याकुल होनेपर कुदराहित
और वातनाशक तथा शुष्क (जो गीले न हों), हलके,
चिकने, गरम, खट्टे और अम्ल नमकीन ऐसे भोजन
करे ॥ ४ ॥

प्रायोऽन्नपानं सक्षौद्रं संस्कृतश्च घनो-
दये ।

मेवोंसे आच्छादित दिनमें प्रायः समस्त अन्न और
पानोको शहदके द्वारा संस्कार करके सेवन करे ।

पुनः संरक्षता चाग्निं यवगोधूमशा-
लयः । पुराणैर्जाङ्गलैर्मासैर्भोज्या यू-
षैश्च संस्कृतैः ॥ पिवेत् क्षौद्रान्वितं
चालपं माध्वीकारिष्टमेव वा ॥ ५ ॥

फिर अग्निकी रक्षा करता हुआ पुराने जौ, गेहूँ
और शालिचावल तथा जांगलप्रदेशके जीवोंके मांसक
भोजन ओर संस्कार किये हुए यूप एवं शहदके साथ
माध्वीक नामक मदिरा अथवा अरिष्ट थोडा थोडा
पान करे ॥ ५ ॥

सविषप्राणिंविष्मूत्रलालानिष्ठीवना-
दिभिः । सदाप्लुतं तदा तोयं नाभकं
विषसन्निभम् ॥ ६ ॥

इस ऋतुमें विपैले जीवोंकी विषा, मूत्र, लार और
थूक आदि आकाशका जल सदैव विषके समान
रहता है ॥ ६ ॥

वायुना विषजातेन तत्पूर्वेण च घर्षि-
तम् । वर्ज्यं सर्वोपयोगेषु तस्मिन्काले
विपश्चिता ॥ ७ ॥

विद्वान् मनुष्य वर्षाऋतुकी विपैली पवनके वर्षण
होनेसे दूषित हुए उस वर्षाके जलको वर्षाऋतुमें
किसी कार्यमें भी प्रयोग न करे ॥ ७ ॥

सोपदंशं निषेवेत माध्वीकारिष्ट-
मासवम् । पिवेत्प्रावृषि धीरोऽल्पं
रात्रौ तदपि वर्जयेत् ॥ ८ ॥

उपदंश (चाट, नमकीन, दाल सेव इत्यादि)
के साथ माध्वीक मदिरा (महुएकी मदिरा) और
महुएके अरिष्ट या आसवको सेवन करे । प्रावृत्ऋतु-
में बुद्धिमान् मनुष्य थोडा थोडा जल पान करे और
रात्रिमें वह भी त्याग देवे ॥ ८ ॥

निरूहैर्वस्तिभिश्चान्यैरथान्यैर्भारुता-
पहैः । कुपितं शमयेद्वातं वार्षिकं वा-
चरेद्विधिम् ॥ ९ ॥

इस प्रावृत् ऋतुमें प्रकुपित वायुको निरूहव-
स्तिके द्वारा अथवा अन्यान्य वातनाशक उपायोंके
द्वारा शमन करे । ओर वर्षाऋतुमें कहीहुई सब विधि
प्रयोग करनी चाहिये ॥ ९ ॥

भूयो वर्षासु संयोगो गङ्गाया दक्षिणे
तटे । ततः प्रावृष्यवर्षाख्यावृतू तेषां
प्रकीर्त्तितौ ॥ १० ॥ तस्या एवोत्तरे
देशे बहुशो हिमसंकुले । भूयः शी-
तमतस्तत्र हेमन्तशिशिरावुभौ ॥ ११ ॥

गंगाके दक्षिणतट देशमें वर्षा अधिक होती है, इस
कारण मुनियोने प्रावृत् और वर्षा दोनों ऋतु अलग
अलग कही हैं । गंगाके उत्तर प्रदेशमें पृथ्वी हिम
(बर्फ) से आच्छादित रहती है इस कारण वहाँ
शीत अधिक होता है, इसलिये हेमन्त और शिशिर
ये दो ऋतुयें कही हैं ॥ १० ॥ ११ ॥

ततो व्यतीते वर्षन्तौ नीलमेघावशु-
ण्ठिते । व्योम्नि प्रसन्नदिङ्मार्गे ल-
ब्धप्रसरभास्करे ॥ १२ ॥ शुक्रस्त्वल-
ब्धसंदर्शजातमाममदस्ततः । आक्रा-
मति रवेर्लक्ष्मीस्तिरस्कृत्य घनान्म-
लान् ॥ १३ ॥

तदनन्तर वर्षाऋतुके व्यतीत होनेपर आकाशमं-
डल नीले मेघोंसे आच्छादित होकर स्वच्छ होजा-
ता है । तथा दिशयें और मार्ग सूर्यकी किरणोंके
पडनेसे निर्मल होजाती हैं । तब मेघोंके नहीं देखने
से सूर्यकी किरणें नवीन मदको धारण करती है और
मेघोंके मलोंका तिरस्कार करके सूर्यकी लक्ष्मी
जगत्में आक्रमण करती है ॥ १२ ॥ १३ ॥

द्राक्षेक्षुक्षीरसेवी च भवेत्तत्र नरा-
धिपः । वर्षासूपचितं पित्तं निर्हरेच्च
विरेचनैः ॥ तिक्तसर्पिःप्रयोगैर्वा शि-
राणां चापि मोक्षणैः ॥ १४ ॥

शरद्वृत्तमें दाख, ईख और दूध इनको सेवन करे।
वर्षाऋतुमें संचित हुए पित्तको विरेचन औपधियोंके
द्वारा निकाले अथवा तिक्त घृतोंके सेवन या शिरामो-
क्षण इनके द्वारा शमन करे ॥ १४ ॥

दिवा सूर्याशुसंततं निशि चन्द्रां-
शुशीतलम् ॥ कालेन पक्वं निर्दोष-
मगस्त्येनाविषीकृतम् ॥ १५ ॥ हंसो-
दकामिति ख्यातं शारदं विमलं शु-
चि । स्नानपानावगाहेषु हितमम्बु
यथाऽमृतम् ॥ १६ ॥

जो दिनमें सूर्यकी किरणोंसे संतप्त किया गया
हो और रात्रिमें चन्द्रमाकी किरणोंसे शीतल किया
गया हो, तथा समयानुकूल पककर निर्दोष हो गया
हो और अगस्त्यके उदय होनेसे निर्विष होगया हो
ऐसे जलको हंसोदक कहते हैं । इस प्रकार निर्मल
और शुद्ध किये हुए जलको शरद्वृत्तमें स्नान, पान
और अवगाहन इन सब कार्योंमें प्रयोग करे । यह
जल अमृतके समान अतीव हितकारी है ॥ १५ ॥ १६ ॥

शारदानि च माल्यानि वासांसि
विधिधानि च । इक्षवः शालयो मु-
द्गाः सरोऽम्भः कथितं पयः ॥ १७ ॥

शरद्वृत्तमें सुगन्धित पुष्पोंकी माला, अनेकप्रकार
के वन, ईख, शालिचावल, मूँग, तालावका जल और
औटाया हुआ जल ये सब हितकारी हैं ॥ १७ ॥

शरत्काले प्रशस्यन्ते प्रदोषे चन्द्र-
श्मयः ॥ १८ ॥

शरद्वृत्तमें प्रदोष क समय चन्द्रमाकी किरणें सेवन
करनी चाहियें ॥ १८ ॥

हेमन्ते शिशिरे चाद्यं विसर्गादानयो-
र्बलम् । शरद्वसन्तयोर्मध्यं हीनं वर्षा-
निदाघयोः ॥ १९ ॥

हेमन्त और शिशिरऋतुके पूर्वमें आदान और
विसर्गाका बल होता है । शरद और वसन्तऋतुके
मध्यमें और वर्षा तथा ग्रीष्मऋतुके अतमें बल होता
है ॥ १९ ॥

शीते शीतानिलस्पर्शसंरुद्धो बलि-
नां बली । पक्ता भवति हेमन्ते मात्रा
द्रव्यगुरुक्षमा ॥ २० ॥

शीतऋतुमें शीतल पत्रनके स्पर्शसे मनुष्योंके शरी-
रकी उष्णता बाहर नहीं निकलती, इस कारण इस
ऋतुमें बलवान् मनुष्योंकी पाचकामि अत्यन्त प्रबल
होकर बहुतसे भोजन और भारी पदार्थोंको पचा-
नेमें समर्थ हो जाती है ॥ २० ॥

स यदा नेन्धनं युक्तं लभते देहजं
तदा । रसं हिनस्त्यतो वायुः शीते
शीतः प्रकुप्यति ॥ २१ ॥ तस्मात्तुषा-
रसमये स्निग्धाम्ललवणात्रसान् ।
औदकानूपमांसानाममेध्यानाञ्च यो-
जयेत् ॥ २२ ॥

अब वह पाचकामि उचित समयमें पकानेके
लिये आहार रूप ईधनको नहीं पाती है । तब वह
शरीरके रसादिधातुओंका क्षय करना आरम्भ कर
देती है । शीतऋतुमें रसके क्षय होनेसे शीतल वायु
कुपित होता है, इस कारण इस हेमन्तऋतुमें स्निग्ध
अम्ल और लवण रसवाले पदार्थोंको तथा जलचर
और अनुपदेशके जीवोंके मांसको सेवन करना
चाहिये ॥ २१ ॥ २२ ॥

बिलेशयानां मांसानि प्रसहानां भू-
तानि च । भक्षयेन्मदिरां सीधुं मधु
चानुपिवेत्रः ॥ २३ ॥

बिलेशयजातिके जीवोंका मांस और प्रसह जातिके
जीवोंका मांस इन सबको भक्षण करे । सीधूनामक
मदिराको सेवन करे और शहदको पान करे ॥ २३ ॥

गोरसानिक्षुविकृतिर्वसातैलं नवौद-
नम् । हेमन्ते भजतस्तोयमुष्णमायुर्न
हीयते ॥ २४ ॥

हेमन्तऋतुमे गोरस (दूधआदि), ईखके विकार
(ईखके रसके द्वारा बनेहुए पदार्थ), वसा, तेल
और नवीन चावलोका भात ये सब द्रव्य सेवन करे ।
और गरमजल पीवे तो मनुष्यकी आयु नहीं घटती
है ॥ २४ ॥

शस्ता रसाला हेमन्ते पीतधूमो म-
दोत्कटः । चौल्लकौशेयसंवीतस्वाश-
ये कुथकास्तृते ॥ २५ ॥ कुंकुमागुरु-
दिग्धाङ्गो निर्वाते भूमिगह्वरे । श-
यीत शयने चापि सुविस्तीर्णे मनो-
रमे ॥ २६ ॥

हेमन्तऋतुमें अनेकप्रकारके रसाले और उत्कट
मदवाले धूमपान सेवन करे । तथा ऊनी, रेशमी,
रत्नकम्बल, पट्टरू, पशमीना और अनेकप्रकारके रुईके
बने हुए वस्त्रोंसे शरीर को आच्छादित करे । और
इसीप्रकारके वस्त्रोंसे संयुक्त सवारी, आसन और
शय्या सेवन करे। केशर और अगरका शरीरपर लेप
करके वातरहित स्थानमें सुविस्तीर्ण और मनोहर
शय्यापर शयन करे ॥ २५ ॥ २६ ॥

तत्रोपनीतदारस्तु प्रिया नारीः
स्वलङ्कृताः । रमयेत यथाकामं
बलादपि मदोत्कटः ॥ २७ ॥

उस शय्यापर सुन्दर, प्रिय और अनेक प्रकारके
अलंकारोंसे सुसज्जित किया है शरीर जिन्होंने ऐसी
स्त्रियोंसे मदोन्मत्त होकर बलपूर्वक इच्छानुसार
रमण करे ॥ २७ ॥

प्रवातं प्रमिताहारमुदमन्थं हिमाग-
मे । वर्जयेच्छीतसंस्पर्शं शीतान्युप-
वनान्यपि ॥ २८ ॥

हेमन्तऋतुमें अधिक वायु, थोडा भोजन, उदमन्थ
(जलक्रीडा या जलको मंथन करना), शीतल
पदार्थोंका स्पर्श और अनेक प्रकारके शीतल उपवन,
पुष्पोद्यान आदिका सेवन इन सबको त्याग देवे २८
एष एव विधिः कार्यः शिशिरेऽपि
सदा बुधैः । हेमन्तशिशिरौ तुल्यौ

शिशिरेऽल्पं विशेषणम् ॥ २९ ॥
रौक्ष्यमादानजं शीतं मेघमारुतवर्ष-
जम् । तस्माद्द्वैमन्तिकः सर्वः शि-
शिरे विधिरिष्यते ॥ ३० ॥

जो विधि हेमन्तऋतुमें कही है, वही सब विधि
बुद्धिमानोंको शिशिरऋतुमेंभी सदैव सेवन करना
चाहिये । प्रायः हेमन्त और शिशिरऋतु समान है ।
केवल शिशिरऋतुमें अन्तर इतना ही है कि शिशिर
ऋतुमें आदानजनित रुक्षता और मेघ, वायु
तथा वर्षासे उत्पन्न हुआ शीत अधिक होता है ।
इसकारण हेमन्तऋतुमें कहीहुई सम्पूर्ण आहार विहार
विधि शिशिरऋतुमें प्रयोग करनी कही
गई है ॥ २९ ॥ ३० ॥

निर्वातमुष्णं त्वाधिकं शिशिरे गृह-
माश्रयेत् । कटुतिक्तकषायाणि वा-
तलानि लघूनि च । वर्जयेदन्नपाना-
नि शिशिरे शीतलानि च ॥ ३१ ॥

शिशिरऋतुमें वायुरहित और विशेष गरम
घरमें रहना चाहिये । तथा कटु, तिक्त, कषैले,
वातकारक, हलके और शीतल अन्न पानोंको
त्याग देना चाहिये ॥ ३१ ॥

हेमन्ते निश्चितः श्लेष्मा दिनकृद्वा-
भिरीरितः । कायाग्निं बाधते रोगां
स्ततः प्रकुरुते बहून् ॥ ३२ ॥

हेमन्तऋतुमें संचित हुआ कफ सूर्यकी तीक्ष्ण
किरणोंसे चलायमान होकर जठराग्निको मंद कर
देता है इससे वह, अनेक प्रकारके रोगोंको उत्पन्न
करता है ॥ ३२ ॥

तस्माद्द्वसन्ते कर्माणि वमनादीनि
कारयेत् । गुर्वम्लस्निग्धमधुरं दिवा-
स्वप्नश्च वर्जयेत् ॥ ३३ ॥

इससे वसन्तऋतुमें कै कराना, जुलाव देना इत्यादि
कर्म कराना चाहिये । एवं भारी, खट्टे, चिकने और
मीठे पदार्थोंका सेवन तथा दिनमें सोना इन सबको
त्याग देना चाहिये ॥ ३३ ॥

यष्टिकान्वा यवाञ्छालीन् मुद्गनी-
वारकोद्रवान् । लावादिविष्किर-
सैर्दद्याद्दृष्टैश्च युक्तिः ॥ ३४ ॥

लवादि विष्करजातिके जीवोंके मांसरसके द्वारा अच्छे प्रकारसे संस्कार किये हुए साठीचावल, जौ, शालिचावल, मूंग, नीवारधान, और कोदों इन सब अन्नोको सेवन करे ॥ ३४ ॥

पटोलनिम्बवार्ताकैस्तिक्तैश्चान्यैर्हि-
मात्यये ॥ ३५ ॥

वसन्तऋतुमें पटोल (परवल), नीम, वैगुन और अन्यान्य- तिक्त रसवाले शाकोको सेवन करे ॥ ३५ ॥

शुचिशुक्लांबरधरश्चन्दनागुरुधूपितः ।
पीनस्तनोरुजघनां रूपयौवनशालि-
नीम् ॥ ३६ ॥ काननेषु विचित्रेषु स-
र्वालङ्कारभूषिताम् । कामयेद्यावदु-
त्साहं सुमनाः कुसुमागमे ॥ ३७ ॥

वसन्तऋतुमें चन्दन और अगरसे अपने शरीर को अच्छे प्रकारसे सुवासित करके स्वच्छ और शुद्ध बच्चोंको धारण करनेवाला मनुष्य जिसके स्तन, ऊरु और जंघा पुष्ट हो एवं रूप, यौवन-युक्त और सम्पूर्ण अलंकारोंसे सुसज्जित स्त्रीको अनेकप्रकारके विचित्र वनोमें प्रसन्न चित्त होकर यथेच्छानुसार सेवन करे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

व्यायाममञ्जनं धूपं तीक्ष्णश्च कवल-
ग्रहम् । तीक्ष्णयुक्तांश्च सर्वान्वा सेवेत
कुसुमागमे ॥ ३८ ॥

वसन्तऋतुमें व्यायाम (दण्ड, कसरत), अजन, प, तीक्ष्णकवल और सम्पूर्ण तीक्ष्ण पदार्थोंको युक्तिपूर्वक सेवन करे ॥ ३८ ॥

मयूखैर्जगतःस्नेहो ग्रीष्मे यः शोषते
रविः । स्वादु शीतं द्रवं स्निग्धमन्न-
पानं तदा हितम् ॥ ३९ ॥

ग्रीष्मऋतुमें संसारके स्नेहपदार्थोंको सूर्य्य अपनी तीक्ष्ण किरणोंके द्वारा सुखा देता है । इसकारण इस ऋतुमें मधुर, शीतल, पतले और चिकने अन्न और पान हितकारी है ॥ ३९ ॥

शीतं सशर्करं मन्थं जाङ्गलान्मृगप-
क्षिणः । घृतम्पयः, सशाल्यन्नं भजन्
ग्रीष्मे न सीदति ॥ ४० ॥

ग्रीष्मऋतुमें मिश्री मिलाहुआ मथ (तक्र विशेष अथवा सजु विशेष), जांगलदेशके पशु और पक्षियों का मांस, घी, दूध और शालिचावलोंका भात ये सब सेवन करने चाहिये ॥ ४० ॥

व्यायाममुष्णमायासं मैथुनं परिदा-
हि च । रसांश्चाग्निगुणोद्विक्तान्वि-
शेषेण विवर्जयेत् ॥ ४१ ॥

व्यायाम, (दण्ड कसरत), गरम पदार्थ, परिश्रम, मैथुन, दाहकारक पदार्थ और विशेष करके आग्नेय गुणविशिष्ट पदार्थोंको त्याग देवे ॥ ४१ ॥

सर्पिः खण्डगुणाक्तांश्च सहकारसम-
न्वितान् । प्रातराशं पिवेत्तक्रं न च
शीतोत्तरं ततः ॥ ४२ ॥

एवं प्रातः काल घृत, खॉड और गुड़से युक्त तथा अनेक प्रकारकी सुगंधि युक्तसे भोजन करे और भोजनके साथ तक्रपान करे तथा उष्ण पदार्थोंका कदापि सेवन न करे ॥ ४२ ॥

यवगोधूमविकृतीळ्छालींश्च विविधा-
नपि । प्रसहानूपमांसानि वृष्यान्य-
न्यानि यान्यपि ॥ ४३ ॥

जौ और गेहूँके बनेहुए पदार्थ, अनेकप्रकारके शालिचावल, प्रसह और अनूपदेशके प्राणियोंका मांस तथा अन्यान्य जो वृष्यपदार्थ हो उन सबको सेवन करे ॥ ४३ ॥

मद्यमल्पं न वा योज्यमथवा सुबहू-
दकम् । लवणाम्लकटूष्णानि व्याया-
मं चात्र वर्जयेत् ॥ ४४ ॥

जिनको मदिरा पीनेका अभ्यास है उनको थोड़ीसी मद्य पीनी चाहिये अथवा बिलकुल नहीं पीनी चाहिये । यदि किसी प्रकार भी न रहा जाय तो बहुतसी जल मिलाहुई मदिरा पीवे एवं लवण, अम्ल, कटु और उष्ण पदार्थ एवं व्यायाम ये सब इस ग्रीष्मऋतुमें त्याग देवे ॥ ४४ ॥

दिवा शीतगृहे निद्रां निशि सोमां-
शुशीतले । भर्जेच्चन्दनादिग्धाङ्गः प्र-
वातं हर्म्यमस्तके ॥ ४५ ॥

शरीरमे चन्दनादिका लेप करके मनुष्य दिनके समय खसकी टट्टी और बर्फ आदिसे सींचे हुए शीतल घरमे शयन करे और रात्रिके समय चन्द्रमाकी किरणोंसे और सुगंधित पवनसे शीतल हुए ऊपरके स्थान (छत, या अटारी) पर शयन करे ॥ ४५ ॥

व्यजनैः पाणिसंस्पर्शैश्चन्दनोदकशीतलैः । सेव्यमानो भजेदस्यां मुक्तामणिविभूषितः ॥ ४६ ॥

इस ऋतुमें दुपहरके समय चन्दन खस आदिके शीतल जलसे छिड़के हुए पंखेके द्वारा हाथोंसे शीतल पवनको स्पर्श करता हुआ शयन करे तथा मोती और मणि आदिको धारण करे ॥ ४६ ॥

काननानि च शीतानि जलानि कुसुमानि च । ग्रीष्मकाले निषेवेत मैथुनाद्विरतो नरः ॥ ४७ ॥

ग्रीष्मकालमें मैथुनसे विरक्त होता हुआ मनुष्य शीतलवन, शीतल जल और शीतल सुगंधित पुष्पोंको सेवन करे ॥ ४७ ॥

व्यायाममातपं यासं व्यवायं चात्र वर्जयेत् । पानभोजनसंस्कारान् प्रायः क्षौद्रान्वितान् भजेत् ॥ ४८ ॥

इनमे व्यायाम, धूप, परिश्रम और मैथुन इनको त्याग देवे । तथा पान और भोजनके समस्त पदार्थोंको शहद मिलाकर सेवन करे ॥ ४८ ॥

सरांसि वाप्यः सरितो वनानि रुचिराणि च । चन्दनानि जलार्द्राश्च स्रजश्च कमलोज्ज्वलाः ॥ ४९ ॥ तालवृन्तानि नीहारास्तथा शीतगृहाणि च । घर्मकाले निषेवेत वासांसि सुलघूनि च ॥ ५० ॥

सरोवर, बावड़ी, नदी, मनोहर वन, चन्दन, जिनमेसे चन्दनमिश्रित जल टपकता हो ऐसी कमलादि पुष्पोंकी बनी हुई मालायें अथवा पंखे ताड़के पंखेकी पवन, बर्फ, शीतल घर और हलके वस्त्र इन सबको ग्रीष्मऋतुमें सेवन करे ॥ ४९ ॥ ५० ॥

ऋत्वोरन्त्यादिसप्ताहादृतुसन्धिरिति स्मृतः । तत्र पूर्वा विधिस्त्याज्यः सेवनीयः परः क्रमात् ॥ ५१ ॥

दो दो ऋतुओंके आदि और अन्तके सात सात दिनको ऋतुसन्धि कहते हैं । उन ऋतुसन्धियोंमें पूर्वऋतुकी विधिको त्याग कर आगामीऋतुकी विधिको सेवन करे ॥ ५१ ॥

सतां वृत्तोपपन्नेन विधिना वर्त्तते नरः । घोरानृतुकृतान्दोषान्नाप्नुयात्स कदाचन ॥ ५२ ॥

जो मनुष्य प्रत्येकऋतुमें सत्पुरुषोंकी कही हुई इन विधियोंके अनुसार आहार विहार करता है, वह मनुष्य ऋतुजनित घोर दोषोंको कदापि प्राप्त नहीं होता है ॥ ५२ ॥

कार्तिकस्य दिनान्यष्टावष्टावग्रहणस्य चायमदंष्ट्रा इति प्रोक्ता स्वल्पाहार्यत्र जीवति ॥ ५३ ॥

कार्तिकके अंतके आठदिन और अगहनके पूर्वके आठदिन इस समयको यमदंष्ट्रा कहते हैं । इस समयमें जो मनुष्य थोडा भोजन करता है वही आरोग्य रहता है ॥ ५३ ॥

वर्षासु मद्यमल्पं वा समन्ताद्बुदकं पिबेत् । उष्णमेव वसन्ते च कामं ग्रीष्मेषु शीतलम् ॥ ५४ ॥

वर्षाऋतुमें अल्प मदिरा पीवे अथवा वारम्बार थोडा २ जल पीवे । बसन्तऋतुमें उष्णजल पीवे और ग्रीष्मऋतुमें यथेच्छ शीतल जल पीवे ॥ ५४ ॥

हेमन्ते च वसन्ते च शीतामिष्टं पिबेन्नरः । शृतशीतपयो ग्रीष्मे प्रावृत्काले रसं पिबेत् ॥ ५५ ॥

हेमन्त और वसन्तऋतुमें भी शीतल जल पीवे । ग्रीष्मऋतुमें शृतशीत (औटाकर शीतल किया हुआ) जल पीवे और प्रावृत् ऋतुमें रस पान करे ॥ ५५ ॥

गूषं वर्षागमस्यान्ते प्रपिबेच्छीतलजलम् । अतिस्निग्धकटुप्रायं हितमम्भो घनक्षये ॥ ५६ ॥

गूषं वर्षागमस्यान्ते प्रपिबेच्छीतलजलम् । अतिस्निग्धकटुप्रायं हितमम्भो घनक्षये ॥ ५६ ॥

वर्षाऋतुके आगमनके समयमें यूप पान करे और वर्षाऋतुके अंतमें शीतल जल पीवे । तथा शरदृतुमें अत्यंत स्निग्ध और कटुरसविशिष्ट जल पीवे ॥५६॥

स्वस्थके लक्षण ।

समदोषः समाग्निश्च समधातुमल-
क्रियः । प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ
इत्यभिधीयते ॥ ५७ ॥

जिसके वातादि दोष समान हो, जठराग्नि भी समान अर्थात् यथावस्थामे स्थित हो, तथा धातु, मल और क्रिया ये भी समान हो, आत्मा, इन्द्रिय और मन ये प्रसन्न हों तो उसको स्वस्थ कहते हैं ॥ ५७॥

इतिश्री वंगसेने भाषाटीकायामृतचर्याधिकार
समाप्त ॥ ८७ ॥

अथ धान्यवर्गाधिकार ।

रक्तशालिखिदोषघ्नस्तृष्णामेदोनिवा-
रणः । महाशालिः परं वृष्यः कलमः
श्लेष्मपित्तहा ॥ १ ॥

लालशालिधान-त्रिदोषनाशक, तृषा और मेदोको दूर करते हैं । महाशालिधान (सुगंधित शालिधान)-अत्यंत वृष्य है । कलमीधान-कफ और पित्तनाशक है ॥ १ ॥

शीतो गुरुद्विदोषघ्नो मधुरो गौर्य-
ष्टिकः । किञ्चिद्धीनो सितस्तस्मा-
त्परोऽयं रसपाकतः ॥ २ ॥

गौर्यष्टिक शालिधान-शीतल, भारी, त्रिदोषना-
शक और मधुर है । सफेद शालिधान इससे रस और पाकमें कुछ हीन है ॥ २ ॥

दग्धायामवनी जाताः शालयो लघु-
पाकिनः । कषाया बद्धविण्मूत्रा रू-
क्षाः श्लेष्मापकर्षणाः ॥ ३ ॥

दग्धभूमिमें उत्पन्न हुए शालिधान-लघुपाकी कपैले, मल और मूत्रको बाँधनेवाले, रूखे और कफ-को अपकर्षण करते हैं ॥ ३ ॥

स्थलजाः कफपित्तघ्नाः कषायाः कटु-
कान्वयाः । किञ्चित्सत्तित्तमधुराः प-
वनानलवर्द्धनाः ॥ ४ ॥

स्थलमें उत्पन्न हुए शालिधान-कफपित्तनाशक, कपैले, कटुरसयुक्त, किञ्चित्तित्त, मधुर तथा वायु और पित्तको बढ़ानेवाले हैं ॥ ४ ॥

कैदारा मधुरा वृष्या बल्याः पित्त-
निबर्हणाः । ईषत्कषायाल्पमला गु-
रवः कफशुक्रलाः ॥ ५ ॥

कैदार (क्षेत्रमें उत्पन्न होनेवाले) शालिधान-मधुर, वृष्य, बलकारक, पित्तनाशक, किञ्चित् कपैले कुंठ एक मलको करनेवाले, भारी, कफ और वीर्य-को बढ़ानेवाले हैं ॥ ५ ॥

रोप्यातिरोप्या लघवः शीघ्रपाका
गुणोत्तराः । त्रिदाहिनो दोषहरा ब-
ल्या सूत्रविवर्द्धनाः ॥ ६ ॥

रोप्यातिरोप्यधान-हलके, शीघ्रपाकी, अत्यंत गुणयुक्त, दाह रहित, दोषनाशक, बलकारक और मूत्रको बढ़ानेवाले हैं ॥ ६ ॥

शालयश्छिन्नरूढा ये रूक्षास्ते बद्ध-
वर्चसः । श्यामाकः शोषणो रूक्षो
वातलः श्लेष्मपित्तहा ॥ ७ ॥

छिन्नरूढशालिधान-रूखे, और मलको बाँधने-वाले हैं । श्यामाक (समाधान)-शोषक, रूखे, वातकारक, और कफ, पित्तको नष्ट करनेवाले हैं ॥ ७ ॥

तद्वत्प्रियंगुनीवाराः कोरदूषाः प्रकी-
र्तिताः । बहुमूत्राः कफहराः कषा-
या वातकोपनाः ॥ ८ ॥

श्यामाकधानके समान कंगुनी, नीवार (तिनी) और कोदोके गुण जानने । ये मूत्रको अधिक लाने-वाले, कफनाशक, कपैले और वातको कुपित करने-वाले हैं ॥ ८ ॥

सूपानामुत्तमा मुद्गा लघीयांसोऽल्प-
मारुताः । हरितास्तेष्वपि वरा आ-
ठकी कफपित्तनुत् ॥ ९ ॥

मूँग सम्पूर्ण दालोंमें उत्तम है । यह—हलकों
किंचित् वायुको कुपित करनेवाली है । सब मूँगोंमें
हरी मूँग श्रेष्ठ होती है । अडहर—कफ और पित्तको
नष्ट करती है ॥ ९ ॥

रूक्षः कषायो विषदोषशुक्रबलासदृ-
ष्टिक्षयकृद्विदाही । कटुर्विपाके मधु-
रस्तु शिम्बिः प्रभिन्नविण्मारुतपि-
त्तलश्च ॥ १० ॥

शिम्बीधान्य—रूखे, कपैले विषदोष, वीर्य्य, कफ,
और दृष्टिको नष्ट करते है। दाहकारक, पाकमें कटु,
मधुर तथा, मल, वायु, और पित्तकारक है ॥ १० ॥

उष्णः कुलत्थो रसतः कषायः कटु-
र्विपाके कफमारुतघ्नः । कुष्ठाशमरी-
गुल्मनिषूदनश्च संग्राहकः पीनसका-
सहन्ता ॥ ११ ॥

कुलथी—गरम, कषायरसयुक्त, पाकमें कटु, कफ-
वातनाशक, कोढ, अशमरी और गुल्मको नष्ट कर-
नेवाली, मलरोधक, पीनस और खॉसीको दूर
करनेवाली है ॥ ११ ॥

आनाहमेदोगुदकीलहिकाश्वासापहः
शोणितपित्तकृच्च । बलासहन्ता न-
यनामयघ्नो विशेषतो वन्यकुलत्थ-
उक्तः ॥ १२ ॥

वनकुलथी—अफारा, मेद, बवासीर, हिचकी और
श्वासको हरनेवाली, रक्तपित्तको कुपित करनेवाली
कफनाशक और विशेष करके नत्रोंके रांगोंको दूर
करती है ॥ १२ ॥

दन्त्योऽग्निमेधाजननोऽल्पमूत्रः स्त-
न्योऽथ केश्योऽनिलहा गुरुश्च । ति-
लेषु सर्वेष्वसितः प्रधानो मध्यःसितो
हीनतरास्तथान्ये ॥ १३ ॥

तिल—दाँतोको हितकारी, अग्नि और मेधाको
बढ़ाने वाले मूत्रको अल्प लानेवाले, स्तनोंमें दूधको
बढ़ानेवाले, केशोंको हितकारी, वातनाशक और भारी

है। सर्वप्रकारके तिलोंमें काले तिल उत्तम होते है, सफेद
तिल मध्यम और अन्यान्य तिल हीनगुणवाले
जानने ॥ १३ ॥

पाके रसे चापि कटुः प्रदिष्टः सिद्धा-
र्थकः शोणितपित्तकोपी । स्निग्धो-
ष्णतीक्ष्णः कफवातहन्ता तथा गुण-
श्चासितसर्षपोऽपि ॥ १४ ॥

सफेद सरसों—रस और पाकमें कटु, रक्तपित्तको
कुपित करनेवाली, स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण और कफ-
वातनाशक है । इसी प्रकार कालीसरसोंके भी गुण
जानने ॥ १४ ॥

माषो गुरुभिन्नपुरीषमूत्रः स्निग्धोऽति-
वृष्यो मधुरोऽनिलघ्नः । सन्तर्पणः
स्तन्यकरो विशेषाद्बलप्रदः शुक्रक-
फावहश्च ॥ १५ ॥

उडद—भारी मल और मूत्रको अगुलोमन करने-
वाले, स्निग्ध, अत्यन्त वृष्य, मधुर, वातनाशक,
तृप्तिकारक, स्तनोंमें दूधको उत्पन्न करनेवाले, विशेष
करके बलकारक, तथा शुक्र और कफको करनेवाले
हैं ॥ १५ ॥

अवृष्यः श्लेष्मपित्तघ्नो राजमाषोऽनि-
लार्तिकृत् । अवल्गुजः सैडगजो नि-
ष्पावा वातपित्तलाः ॥ १६ ॥

राजमाप (लोविया)—वीर्य्यको क्षय करनेवाला,
कफपित्तनाशक, और वायुकी पीडाको करनेवाला है ।
अवल्गुज (वापचीके बीज), एडगज (पमारके
बीज)—और निष्पाव (सेमके बीज)—वात और
पित्तको कुपित करनेवाले हैं ॥ १६ ॥

काकाण्डमात्मगुप्तानां माषवत् फल-
मादिशेत ।

काकाण्डधान्य (लहुवा) और कौलके बीज इनके
गुण उडदोंके समान जानने ॥

मसूरा मधुराः पाके ग्राहिणो रूक्ष-
शीतलाः ॥ १७ ॥

मसूर—पाकमें मधुर, मलरोधक, रूखी और शीतल
है ॥ १७ ॥

मकुष्टकाः प्रशस्यन्ते रक्तपित्तज्वरा-
दिषु । चणकाश्च मसूराश्च षण्डीकाः
सहरेणवः । गुरवः शीतमधुराः
सकषाया विरूक्षणाः ॥ १८ ॥ पित्त-
श्लेष्मणि शस्यन्ते सूषेष्वालेपनेषु
च ॥ १९ ॥

मोठ-रक्तपित्त और ज्वरमे हितकारी है । चने,
मसूर, कस्सा (खेसारी) और मटर ये भारी, शीतल
मधुर, कपैले, रूखे, पित्त और कफमे हितकारी तथा
दाढ और लेपमें उपयोगी है ॥ १८ ॥ १९ ॥

यवः कषायो मधुरो हिमश्च कटुर्वि-
पाके कफपित्तहारी । व्रणेऽतिपथ्य-
स्तिलवच्च नित्यं प्रबद्धमूत्रो बहुवा-
तवर्चाः ॥ २० ॥ स्थैर्याग्निमेधास्व-
रवर्णकृच्च सुपिच्छिलः कण्ठ्यविले-
पनश्च । मेदोमरुत्तृशामनोऽथ रूक्षः
प्रसादनः शोणितपित्तयोश्च ॥ २१ ॥
एतैर्गुणैर्हीनतरांश्च किञ्चिद्विद्याद्यवे-
भ्योऽतियवानशेषैः ॥ २२ ॥

जौ-कपैले, मधुर, शीतल, पाकमे कटु, कफपित्त-
नाशक, व्रणमे तिलके समान पथ्य, मूत्रको रोकने-
वाले, वायु और मलको अत्यन्त करनेवाले, स्थिरता,
अग्नि, मेधा, स्वर और वर्णको बढ़ानेवाले, पिच्छिल
कण्ठको हितकारी, लेपमे हितकारी, मेद, वायु और
तृपाको शमन करनेवाले, रूखे और रक्तपित्तको प्रसन्न
करनेवाले है । जौओंसे अतियव कुछ हीन गुणवाले
है ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥

गोधूम उक्तो मधुरो गुरुश्च बल्यः
स्थिरः शुक्ररुचिप्रदश्च । स्निग्धोऽति-
शीतोऽनिलपित्तहारी सन्धानकृच्छ्रे-
ष्महरः सरश्च ॥ २३ ॥

गेहूँ-मधुर, भारी, बलकारक, स्थिर, वीर्य्य और
रुचिको उत्पन्न करनेवाले, स्निग्ध, अत्यन्त शीतल,
वातपित्तनाशक, भ्रमसन्धानकारक, कफनाशक और
सारक है ॥ २३ ॥

अनार्त्तवं व्याधिहरमपर्यागतमेव च ।
अभूमिजं नवं चापि धान्यं न गुणव-

त्स्मृतम् । नवं धान्यमभिष्यंदि लघु-
संवत्सरोषितम् ॥ विदाहि गुरु विष्ट-
श्च विरूढं वातकोपनम् ॥ २४ ॥

विना ऋतुमें उत्पन्न हुए तथा कृमि, शरदी, गरमी
आदिसे दूषित तथा बुरी भूमिमें उत्पन्न हुए और
नवीन धान्य गुणवान् नहीं होते । नवीन धान्य अभि-
ष्यन्दकारक है । एक वर्षके पुराने धान्य हलके होते
है । विरूढ अर्थात् जिनमें अकुर निकल आये हो
ऐसे धान्य-दाहकारक, विष्टम्भजनक और वायुको
कुपित करनेवाले जानते ॥ २४ ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकाया धान्यवर्गाधिकार
समाप्त ॥ ८ ॥

अथ मांसवर्गाधिकार ।

संग्राही दीपिनः शीतः कषायो मधु-
रो लघुः । लावः कटुविपाकश्च सन्नि-
पाते च पूजितः ॥ १ ॥

लवाका मांस-मलरोधक, अग्निका दीपन करने-
वाला, शीतल, कपैला, मधुर, हलका, पाकमे कटु
और सन्निपातमे हितकारी है ॥ १ ॥

ईषद्गुरुस्तु मधुरो वृष्यो मेधाग्निव-
र्द्धनः । तित्तिरिः सर्वदोषघ्नो ग्राही
वर्णप्रसादनः ॥ २ ॥

तितरका मांस-किञ्चित् भारी, मधुर, वीर्य्यवर्धक
मेधा और अग्निको बढ़ानेवाला, सर्वदोषनाशक,
मलरोधक और वर्णको उज्ज्वल करनेवाला है ॥ २ ॥

रक्तपित्तहरः शीतो लघुश्चापि कपि-
ञ्जलः । कफोत्थेषु च रोगेषु मेदे वाते
च शस्यते ॥ ३ ॥

सफेद तितरका मांस-रक्तपित्तनाशक, शीतल,
हलका तथा कफजनितरोग, मद और वातके रोगोमें
हितकारी है ॥ ३ ॥

वातपित्तहरा बल्या मेधाग्निबलव-
र्द्धनाः । लघवः क्रकरा हृद्यास्तथा
चैवोपचक्रकाः ॥ ४ ॥

क्रकरपक्षीका मांस-वातपित्तनाशक, बलकारक,
मेधा, अग्नि और बलको बढ़ानेवाला, हलका और
हृदयको हितकारी है । उपचक्रकके मांसके गुण भी
इसीके समान जानने ॥ ४ ॥

कषायः स्यादुलवणस्त्वच्यः केश्यो
रुचिप्रदः । मयूरः स्वरमेधाग्निदृक्लो-
त्रेन्द्रियदाढ्यकृत ॥ ५ ॥

मयूरका मांस-कपैला, स्वादिष्ट, लवणरसयुक्त,
त्वचा और बालोको हितकारी, रुचिकारक तथा
स्वर, मेधा, जठराग्नि, दृष्टि, कर्ण और इंद्रियोको
दृढ करनेवाला है ॥ ५ ॥

स्निग्धोष्णोऽनिलहा वृष्यः स्वेदस्वर-
बलावहः । वृंहणः कुक्कुटो वन्यस्त-
द्रद्राम्यो गुरुर्मतः ॥ ६ ॥

वनसुरगेका मांस-चिकना, गरम, वातनाशक,
वृष्य, स्वेद, स्वर और बलको उत्पन्न करनेवाला
तथा पुष्टिकारक है । ग्राम्यसुरगेका मांस भी इसीके
समान जानना । विशेष कर यह भारी है ॥ ६ ॥

मृगाः सर्वप्रकाराश्च पित्तश्लेष्महराः
स्मृताः । किञ्चिद्वालकराश्चापि लघ-
वो बलवर्द्धनाः ॥ ७ ॥

सब प्रकारके मृगोंके मांस-पित्तकफनाशक, कि-
चिन् वातकारक, हलके और बलको बढ़ानेवाले
हैं ॥ ७ ॥

कषायो मधुरो हृद्यः पितासृक्कफवा-
तहा । संग्राही रोचनो बल्यस्तेषा-
मेण्यो ज्वरापहः ॥ ८ ॥

इनमें एणहरिण (काले हिरन) का मांस-कपै-
ला, मधुर, हृदयको हितकारी, रक्त, पित्त और
कफ, वातनाशक, मलरोधक, रुचिकारक, बलकारक
और ज्वरको दूर करता है ॥ ८ ॥

मधुरो मधुरः पाके दोषघ्नोऽनलदी-
पनः । शीतलो बद्धविण्मूत्रः सुग-
न्धिहरिणो लघुः ॥ ९ ॥

हरिणका मांस-मधुर, पाकमें भी मधुर, त्रिदोषना-
शक, अग्निको दीपन करनेवाला, शीतल, मलमूत्रको
रोकनेवाला, सुगन्धित और हलका है ॥ ९ ॥

कषायः स्वादु लवणो गुरुः काणक-
पोतकः ।

काणकपोतक (काकातुआ) का मांस-कपैला,
स्वादिष्ट, लवणरसयुक्त और भारी है ।

रक्तपित्तप्रशमनो विशदोऽपि कषा-
यकः । विपाके मधुरश्चापि गुरुः
पारावतः स्मृतः ॥ १० ॥

कवूतरका मांस-रक्तपित्तको शमन करनेवाला,
विशद, कपैला, पाकमें मधुर और भारी है ॥ १० ॥

कुलिङ्गो मधुरः स्निग्धः कफशुक्रवि-
वर्द्धनः । सन्निपातहरो वेश्मकुलि-
ङ्गस्त्वतिशुक्रलः ॥ ११ ॥

कुलिङ्ग-(चिडा) का मांस-मधुर, स्निग्ध, कफ
और शुक्रको बढ़ानेवाला और सन्निपातनाशक है ।
घरमें पाले हुए चिडेका मांस-अत्यन्त शुक्रजनक
है ॥ ११ ॥

प्रसहाः शोषगुल्माशोऽग्रहणीदोषि-
णां हिताः । सर्वदोषहरास्तेषां मेद-
स्तु बलदूषकम् ॥ १२ ॥

प्रसहजीवोका मांस-शोष, गुल्म, अर्श और ग्रह-
णी रोगबोलाको हितकारी है । तथा सर्वदोषनाशक,
मेद और बलको दूषित करता है ॥ १२ ॥

वृकसिंहकापिव्याघ्रभासमार्जारमूषि-
काः । तरक्षुक्कुररश्येनशशघ्नीजम्बु-
कादयः ॥ १३ ॥

वृक, सिंह, कपि, व्याघ्र, भास, मार्जार, मूपक,
तरक्षु, कुरर, रश्येन, शशघ्न, जम्बुकादि इनको गुहा-
शय कहते हैं ॥ १३ ॥

गुहाशया वातहरा गुरुष्णा मधुरा-
श्च ते । स्निग्धा बल्या हिता नित्यं
नेत्रगुहाधिकारिणम् ॥ १४ ॥

गुहाशयजीवोका मांस-वातनाशक, भारी, गरम,
मधुर, स्निग्ध, बलकारक, तथा नेत्ररोगी और अर्शरो-
गियोंको सदैव हितकारी है ॥ १४ ॥

नकुलः शल्लकी गोधा शशश्चापि
भुजङ्गमाः । श्वात्तकासानिलहरा
भूशयाः कफपित्तलाः ॥ १५ ॥

नकुल, शल्यकी, गोधा, शशक और सर्प, इनको भूशय कहते हैं । भूशयप्राणियोंका मांस श्वास, खाँसी और वातनाशक है । तथा कफ और पित्तको बढ़ाता है ॥ १५ ॥

कषायो मधुरस्तेषां शशः पित्तकफा-
पहः । नातिशीतलवीर्य्यत्वाद्वातसा-
धारणो मत्स्यः ॥ १६ ॥

शशकका मांस-कपैला, मधुर, पित्तकफनाशक और अत्यन्त शीतवीर्य्य न होनेसे साधारण वातको करता है ॥ १६ ॥

महिषो गवयः खड्गी वराहश्चमरो
रुरुः । आनूपा मधुरा बल्या गुरु-
स्निग्धाः कफप्रदाः ॥ १७ ॥

महिष, गवय, खड्गी, वाराह, चमर और रुरु इन प्राणियोंको अनूप कहते हैं । आनूपप्राणियोंक मांस मधुर, बलकारक, भारी, स्निग्ध और कफकारक है ॥ १७ ॥

नातिस्निग्धाश्चमर्य्यस्तु मदापित्तक-
फाः स्मृताः । छगलस्त्वनभिष्यन्दी
तेषां पीनसनाशनः ॥ १८ ॥

चमरगायका मांस-अत्यन्त स्निग्ध नहीं है तथा मद, पित्त और कफको करता है । चकरेका मांस अनाभिष्यन्द् और पीनसको दूर करता है ॥ १८ ॥

बृंहणं मांसमौरभ्रं पित्तश्लेष्मकरं
गुरु । मेदःपुच्छोद्भवं वृष्यमौरभ्र-
सदृशं गुणैः ॥ १९ ॥

भेडका मान-पुष्टिकारक, पित्तकफकारी और भारी है । दुम्बेका मांस-अत्यन्त वीर्य्यवर्द्धक होता है और अपगुण इसके भेडके मांसके समान जानने ॥ १९ ॥

श्वासकासप्रतिश्यायविषमज्वरनाश-
नम् । गव्यं श्रमात्यन्निहितं दुष्पा-
कमनिलापहम् ॥ २० ॥

गायका मांस-श्वास, खाँसी, प्रतिश्याय और विषमज्वरको नष्ट करता है । तथो श्रमको दूर करनेवाला, अत्यन्त बढी हुई आग्निके लिये हितकारी, देरमें पचनेवाला और वायुनाशक है ॥ २० ॥

औरभ्रवत्सलवणं मांसमेकशफोद्भव-
म् । हंसकारण्डवक्रौश्चमद्भुमल्लाह-
सारसाः । नन्धावर्त्ता बलाकाश्च श्ले-
ष्मला गुरवः प्लवाः ॥ २१ ॥

एकखुरवाले जीवोंका मांस-नमकीन होता है । इसके विशेषगुण भेडके मांसके समान जानने । हंस, कारण्डव, कौच, मद्गु, भल्लाह, सारस, नन्धावर्त और बलाका इनको प्लव कहते हैं । प्लवजीवोंका मांस कफकारी और भारी है ॥ २१ ॥

मत्स्यः कर्कटकः कूर्मः शिशुमारो-
ऽथ शुक्तयः । शंखाश्च गुरवः स्निग्धाः
शीता वृष्या जलेशयाः ॥ २२ ॥

मत्स्य, कर्कट, कूर्म, शिशुमार, शुक्ति और शंख इनको जलेशय कहते हैं । जलेशयोंका मांस भारी स्निग्ध, शीतल और वृष्य है ॥ २२ ॥

सामुद्रा गुरवः स्निग्धा मधुरा नाति-
पित्तलाः । उष्णा वातहरा वृष्या
वर्चश्लेष्मविवर्द्धनाः ॥ २३ ॥


समुद्रके जीवोंका मांस-भारी, स्निग्ध, मधुर, अत्यन्त पित्तकारक नहीं, गरम, वातनाशक, वृष्य, मल और कफको बढ़ानेवाला है ॥ २३ ॥

बलावहा विशेषेण मत्स्याशित्वात्स-
मुद्रजाः । समुद्रजेभ्यो नादेया बृंहण-
त्वाद्गुणोत्तराः ॥ २४ ॥

मत्स्योंको भक्षण करनेसे समुद्रके जीवोंका मांस-विशेष करके बलकारक है । समुद्रके प्राणियोंके मांससे अतीव बृंहण होनेके कारण नदीके प्राणियोंका मांस विशेष गुणवाला है ॥ २४ ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां मांसवर्गाधिकारः
समाप्तः ॥ ८९ ॥

अथ शाकफलवर्गाधिकार ।



पाठा मूर्वा शठीशाकं वास्तुकं सु-
निषण्णकम् । विद्याद्राहि त्रिदोषघ्नं
मार्कवं चिल्लिवास्तुकम् ॥ १ ॥

पाठ, मूर्वा, कचूर, बथुआ, चौपतिया भांगरा
और चिल्लीबथुआ इन सबका शाक मलरोधक और
त्रिदोष नाशक है ॥ १ ॥

संप्राही क्ष्वकः प्रोक्तः स्निग्धः पञ्चां-
गुलः सरः । भण्टी वत्सादनी फञ्जी
वातघ्नी लघुदीपनी ॥ २ ॥

क्ष्वक (चिरचिट्टका शाक)—मलरोधक है ।
पञ्चांगुल (अण्डके पत्तोंका शाक)—स्निग्ध और
सारक है । भण्टी (कटेरीका भेद) गिलोय और
फंजी (तुलसीका भेद) ये तीनों वातनाशक,
हलकी और अग्निको दीपन करती हैं ॥ २ ॥

काकमाचीत्रिदोषघ्नी स्तन्या वृष्या
कलाम्बिका । चाङ्गेरी कफवातघ्नी
सार्षपं सर्वदोषकृत् ॥ ३ ॥

मकोयका शाक—त्रिदोषनाशक है । कलमीशाक
स्तनोंमें दूधको उत्पन्न करनेवाला और वृष्य है ।
चांगेरी (नोनिया)—कफवातनाशक और सरसोका
शाक सर्वदोषकारक है ॥ ३ ॥

सार्षपं च सकौसुम्भं राजिकैकान्त-
पित्तला । नाडीकः कफवातघ्नः कटु-
मधुरशीतलः ॥ ४ ॥

सरसो, कसूम और राई इनका शाक विशेष
पित्तकारक है । तथा नाडीका शाक—कफवातनाशक,
कटु, मधुर और शीतल है ॥ ४ ॥

सतीनशाकं श्लेष्मघ्नं त्रैपुटं वातकृ-
न्मतम् । श्रीहस्तिनी सपत्नूरा मूत्र-
लाशमरिभदनी ॥ ५ ॥

मटरका शाक—कफनाशक है । खिसारीका शाक—
वातकारक है । श्रीहस्तिनी (नागदन्ती) और
शालिचशाक—मूत्रजनक और पथरीको दूर
करता है ॥ ५ ॥

कालशाकन्तु कटुकं दीपनं कफशो-
थजित् । वृष्या स्निग्धा च शीता च
मृत्युघ्नी चाप्युपोदिका ॥ ६ ॥

कालशाक—कटु, अग्निप्रदीपक, कफ और सूज-
नको दूर करता है । पोईका शाक—वृष्य, स्निग्ध,
शीतल और मृत्युनाशक है ॥ ६ ॥

रूक्षो विषमदघ्नश्च प्रशस्तो रक्तपित्ति-
नाम् । मधुरो मधुरः पाके शीतल-
स्तंडुलीयकः ॥ ७ ॥

चौलाईका शाक—रूखा, विष और मदनाशक,
रक्तपित्तरोगियोंको हितकारी, मधुर, पाकमें भी मधुर
और शीतल है ॥ ७ ॥

वर्षाभवौ कफवातघ्नौ हितौ शोफोद-
रेऽर्शासि ॥ ८ ॥

दोनों प्रकारके पुनर्नवेका शाक—कफवातनाशक
तथा सूजन, उदर और अर्शरोगमें अत्यंत हितकारी
है ॥ ८ ॥

कटुतिक्तरसा हृद्या रोचना वह्निदी-
पनी । सर्वदोषहरी लघ्वी कण्ठ्या मू-
लकपोतिका ॥ ९ ॥

छोटीमूली—कटु और तिक्तरसान्वित, हृदयको
हितकारी, रुचिकारक, अग्निको दीपन करनेवाली
समस्त दोषनाशक, हलकी और कंठको हितकारी
है ॥ ९ ॥

महत्तद्गुरु विष्टम्भि तीक्ष्णमाम्ब्र दो-
षलम् । तदेव स्नेहसिद्धन्तु वातन्तु
कफपित्तजित् ॥ १० ॥

बडीमूली—भारी और विष्टम्भकारी है । कच्चीमूली
तीक्ष्ण और दोषकारक है । वही मूली तेल घृतादि-
कोमें सिद्ध कीहुई—वातनाशक और कफपित्तको दूर
करनेवाली है ॥ १० ॥

शुष्कन्तु शोथशमनं गरदोषहरं ल-
घु । विष्टम्भि वातलं शाकं शुष्कम-
न्यत्र मूलकात् ॥ ११ ॥

सूखीमूली—शोथनाशक, विषदोषनाशक और
हलकी है । सूखीमूलीके सिवाय अन्यान्य समस्त
सूखेशाक—विष्टम्भकारक और वायुको कुपित करते
हैं ॥ ११ ॥

पुष्पश्च पत्रश्च फलं तथैव यथोत्तरन्ते
लघवः प्रदिष्टाः । तेषान्तु पुष्पं कफ-
वातहन्तु फलं निहन्त्यात्कफमारुतौ
च ॥ १२ ॥

पुष्प, पत्र और फलशाक ये क्रमसे उत्तरोत्तर लघु
हैं । इनमें पुष्पशाक-कफवातनाशक और फलशाक भी
कफवायुको दूर करनेवाला है ॥ १२ ॥

रक्तपित्तहरी शोथकुष्ठघ्नी हिलमो-
चिका । कफापहं शाकमुक्तं वरुणप्र-
पुनाटयोः ॥ १३ ॥

हिलमोचिका (हुलहुल) का शाक रक्तपित्तनाशक
शोथ और कुष्ठ नाशक है । वरुण और पमारका शाक
कफनाशक है ॥ १३ ॥

स्निग्धोष्णतीक्ष्णः कटुपिच्छिलश्च गु-
रुः सरः स्वादुरसोऽथ बल्यः । वृष्य-
श्च मेधास्वरवर्णचक्षुर्भग्रास्थिसंधा-
नकरो रसोनः ॥ १४ ॥ हृद्रोगजीर्णज्वर-
कुक्षिशूलविवन्धगुल्मारुचिकासशो-
षान् । दुर्नामकुष्ठानलसादजन्तुः स-
मीरणश्वासकफांश्च हन्ति ॥ १५ ॥

लहसुन-स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण, कटुरसान्वित, पि-
च्छिल, भारी, सारक, स्वादु, बलकारक, वृष्य, मेधा,
स्वर, वर्ण और नेत्रोंको हितकारी है । दूटी हुई हड्डी-
को जोड़नेवाला तथा हृदयरोग, जीर्णज्वर, कुक्षिशूल,
विवन्ध, गुल्म, अरुचि, खांसी, शोष, ववासीर, कोढ़,
मंदाग्नि, वायु, श्वास और कफ इन सबको दूर करता
है ॥ १४ ॥ १५ ॥

नात्युष्णवीर्योऽनिलहा कटुश्च ती-
क्ष्णो गुरुर्नातिकफावहश्च । बलावहः
पित्तहरोऽथ किञ्चित्पलांडुरग्रेश्च विवृ-
द्धिकारी ॥ १६ ॥

प्याज-अत्यंत उष्णवीर्य नहीं है, वातनाशक, चर-
परा, तीक्ष्ण, भारी, न अत्यंत कफको, करनेवाला,
बलको बढ़ानेवाला, पित्तनाशक और किञ्चित् अग्निको
दीपन करता है ॥ १६ ॥

स्निग्धोऽथ रुच्यः स्थिरधातुकर्ता
बलयोऽथ मेधा कफपुष्टिदाता । रवा-
दुर्गुरुः शोणितपित्तशस्तः सपिच्छलः
क्षीरपलांडुरुक्तः ॥ १७ ॥

सफेद प्याज-चिकना, रुचिकारक, धातुओंको
स्थिर करनेवाला, बलकारक, मेधा, कफ और
पुष्टिको करनेवाला, रवादु, भारी, रक्तपित्तमें हित-
कारी और पिच्छिल है ॥ १७ ॥

न्यग्रोधोऽथ दुग्धराश्वत्थप्रक्षपद्मादिपल्ल-
वाः । कपायाः स्तम्भनाः शीता हि-
ताः पित्तातिसारिणाम् ॥ १८ ॥

बड़, गूलर, पापिल, पायस और कमल आदिके पत्तोंका
शाक-कपेला, स्तम्भक, शीतल और पित्तातिमार
रोगियोंको हितकारी है ॥ १८ ॥

स्नंसनं कटुकं पाके कफघ्नमानिलाप-
हम् । शोथघ्नमुष्णवीर्यश्च पत्रं पृति-
करंजजम् ॥ १९ ॥

दुर्गंधकरंजके पत्तोंका शाक-स्नंसन, पाकमें कटु
कफ वातनाशक, सूजनको दूर करनेवाला और
उष्णवीर्य है ॥ १९ ॥

वेणोः करीराः श्लेष्मघ्नाः कटुका र-
सपाकतः । विदाहिनो नातिबलाः
सकषाया निरूक्षणाः ॥ २० ॥

वाँसके अंकुर-कफनाशक, रस और पाकमें
कटु, दाहकारक, अत्यंत बलकारक नहीं, कपेले और
रूक्ष है ॥ २० ॥

कफशोणितपित्तघ्नं रोचनं कारवेल्ल-
कम् । कारवेल्लकवज्ज्यं फलं कर्को-
टकस्य च ॥ २१ ॥

करेला-कफ और रक्तपित्तको दूर करनेवाला
और रुचिकारक है । ककोडेके गुण भी करेलेके
समान जानने ॥ २१ ॥

पटोलपत्रं पित्तघ्नं नालं तस्य कफा-
पहम् । फलं त्रिदोषशमनं मूलं त-
स्य विरेचनम् ॥ २२ ॥

पटोलपत्र-पित्तनाशक । पटोलकी नाल-कफनाशक । पटोलके फल (परवल)-त्रिदोषनाशक और पटोलकी जड़ विरेचन है ॥ २२ ॥

पित्तनुत्तेषु कूष्माण्डं बालं मध्यं कफापहम् । शुष्कं लघूष्णं सक्षारं दीपनं बस्तिशोधनम् ॥ २३ ॥

कच्चापेठा-पित्तनाशक । मध्यम अवस्थाका पेठा-कफनाशक । सूखापेठा-हलका, गरम, खारी, अग्निप्रदीपक और बस्तिशोधक है ॥ २३ ॥

सर्वदोषहरं हृद्यं पथ्यं चेतोविकारिणाम् ।

यह पेठा सम्पूर्ण दोषनाशक, हृदयको हितकारी और मानसिकरोगवाले मनुष्योंको अतीव हितकारी है ।

बालं सनीलं त्रपुसं तत्तु पित्तहरं स्मृतम् । तत्पांडु कफकृज्जीर्णमम्लं वातविनाशनम् ॥ २४ ॥

कच्चा हरेरंगका खीरा-पित्तनाशक है । पीलेरंगका मध्यमअवस्थाका खीरा-कफकारक है । पुराना खीरा अम्ल और वातनाशक है ॥ २४ ॥

एवार्कं सकर्कारुसंपकं कफवातजित् । साक्षारं मधुरं रुच्यं तच्चोक्तं नातिपित्तलम् ॥ २५ ॥

ककडी और पेठा ये दोनों पके हुए कफवातनाशक हैं । तथा क्षार, मधुर, रुचिकारक और अत्यंत पित्तकारक नहीं है ॥ २५ ॥

सक्षारमधुरं भेदि शीर्णवृत्तं कफापहम् ॥ २६ ॥

तरबूज-क्षारयुक्त, मधुर, भेदक, फटनेवाला और कफकारक है ॥ २६ ॥

कंडूकुष्ठकृमिघ्नानि कफपित्तहराणि च । फलानि बृहतीनान्तु कटुतिक्तलघूनि च ॥ २७ ॥

बडीकटेरीके फल-कण्डू, कुष्ठ, कृमि, कफ और पित्तको दूर करते हैं तथा कटु, तिक्त और लघु है ॥ २७ ॥

कफवातहरं तिक्तं रोचनं कटुकं लघु । वार्त्ताकु दीपनं प्रोक्तं जीर्णसक्षारपित्तलम् ॥ २८ ॥

वैगुन-कफवातनाशक, तिक्त, रुचिकारक, कटु, हलका और अग्निप्रदीपक है । पुराना वैगुन-क्षार और पित्तकारक है ॥ २८ ॥

अत्यर्थमधुरा रुच्याः पित्तघ्नी मधुकर्कटी । कर्कन्धुकोलबदरमम्लं वातविनाशनम् ॥ २९ ॥

मीठी ककडी-अत्यंतमधुर, रुचिकारक और पित्तनाशक है । छोटोबेर, बडाबेर और समस्त प्रकारके बेर अम्ल और वातनाशक है ॥ २९ ॥

पक्वं पित्तानिलहरं स्निग्धं समधुरं सरम् । पुराणं तृट्प्रशमनं श्रमघ्नं दीपनं परम् ॥ ३० ॥

पके हुए बेर-पित्तवातनाशक, स्निग्ध, मधुर और सारक है । पुराने बेर-तृपाको शांत करनेवाले, श्रमनाशक और अग्निप्रदीपक करते हैं ॥ ३० ॥

सौवीरं बदरं स्निग्धं मधुरं वातपित्तजित् । आमं कपित्थं वैस्वर्यं ग्राही मधुरवातलम् ॥ ३१ ॥

सौवीर (पेमदी) बेर-स्निग्ध, मधुर और वातपित्तनाशक है । कच्चा कैथ-स्वरको बिगाडनेवाला मलरोधक और वातकारक है ॥ ३१ ॥

कफानिलहरं पक्वं मधुरानुरसं गुरु । दौषलं पित्तकृतपांडु जम्बीरमतिपित्तलम् ॥ ३२ ॥

पक्वाकैथ-कफवातनाशक, मधुर और भारी है । पांडुनीवू-दोषजनक और पित्तकारक है तथा जम्बीरीनीवू-अत्यंत पित्तकारक है ॥ ३२ ॥

गुल्मवातकफश्वासकासघ्नं बीजपूरकम् । केसरं मालुङ्गस्य दीपनं कफवातजित् ॥ ३३ ॥

विजौरानीवू-गुल्म, वात, कफ, श्वास और खाँसीको दूर करता है । विजौरेनीवूकी केसर-अग्निप्रदीपक और कफवातनाशक है ॥ ३३ ॥

वातपित्तहरं मांसं त्वक्स्निग्धोष्णा-
निलापहा ।

विजौरेनीवूका गूदा-वातपित्तनाशक और विजौ-
रेनीवूकी छाल स्निग्ध, उष्ण और वातनाशक है ।

अत्यर्थमधुरा रुच्या पित्तघ्नी मधुक-
र्कटी ॥ ३४ ॥

मीठानीवू-अत्यंतमधुर, रुचिकारक और पित्त-
नाशक है ॥ ३४ ॥

पित्तमारुतकृद्भालं पित्तलं बद्धकेस-
रम् । हृद्यं वर्णकरं रुच्यं रक्तमांसव-
लप्रदम् ॥ ३५ ॥

वही कञ्जानीवू-पित्तवातकारक, बद्धकेसर, पित्त-
कारक, हृदयको हितकारी, वर्णकारक, रुचिकारक,
तथा रुधिर मांस और बलको बढ़ाता है ॥ ३५ ॥

कषायानुरसं स्वादु वातघ्नं वृंहणं गु-
रु । पित्ताविरोधिसंपक्वमांसं शुक्र-
विवर्द्धनम् ॥ ३६ ॥

अच्छे प्रकारसे पका हुआ आम कषायरसान्वित,
स्वादु, वातनाशक, पुष्टिकारक, भारी, पित्तको नहीं
कुपित करनेवाला और वीर्यको बढ़ाता है ॥ ३६ ॥

वृंहणं मधुरं बल्यं गुरु विष्टभ्य जी-
र्यति । आम्रातकफलं वृष्यं सस्त्रेहं
कफवर्द्धनम् ॥ ३७ ॥

अम्वाडा-पुष्टिकारक, मधुर, बलकारक, भारी,
विष्टभ्यतापूर्वक पचनेवाला, स्नेहयुक्त, वृष्य है और
कफको बढ़ाता है ॥ ३७ ॥

त्रिदोषविष्टम्भकरं लक्षुचं शुक्रनाश-
नम् ।

षडहल-त्रिदोषको कुपित करनेवाला, विष्टम्भका-
रक और शुक्रको नष्ट करता है ।

अम्लं तृष्णाहरं रुच्यं पित्तकृत्क-
रमर्दकम् ॥ ३८ ॥

कौंदा-अम्ल, तृषानिवारक, रुचिकारक और
पित्तको कुपित करता है ॥ ३८ ॥

हृद्यं स्वादु कषायाम्लं भव्यमास्यवि-
शोधनम् ।

भव्यफल-हृदयको हितकारी, स्वादु, कपैला,
अम्ल और मुखको शुद्ध करता है ।

गरदोषहरं नीपं प्राचीनामलकं तथा
॥ ३९ ॥

कदमके फल और पुगना आमला-गर विपदो-
पनाशक हैं ॥ ३९ ॥

वातापहं तित्तिडीकमामं पित्तवला-
सकृत् । ग्राहि संदीपनं हृद्यं सम्पकं
कफवातनुत् ॥ ४० ॥

तित्तिडीकका कच्चाफल वातनाशक तथा पित्त
और कफको कुपित करता है । पका हुआ तित्तिडी-
कका फल-मलरोधक अग्निको दीपन करनेवाला,
हृदयको हितकारी तथा कफ और वातको नष्ट
करता है ॥ ४० ॥

तस्मादल्पान्तरगुणं कोशात्रफलमु-
च्यते । अम्लीकायाः फलं तद्वत्पकं
भेदि तु केवलम् ॥ ४१ ॥

कोशात्रके गुण इससे कुछ कम जानने । इमली-
के गुण भी इसीके समान जानने और पकी इमली
केवल भेदक है ॥ ४१ ॥

अम्लं समधुरं हृद्यं वृष्यमेतत्तु रोच-
नम् । वातघ्नं दुर्जरं प्रोक्तं नागरङ्गफलं
गुरु ॥ ४२ ॥

नारंगी-अम्ल, मधुर, हृदयको हितकारी, वृष्य,
रुचिकारक, वातनाशक, ढेरमे जीर्ण होनेवाला और
भारी है ॥ ४२ ॥

कषायानुरसं चैषां दाडिमं नाति-
पित्तलम् । दीपनीयं रुचिकरं हृद्यं
वर्चो विबन्धनम् ॥ ४३ ॥

अनार-कषायरसान्वित, अत्यन्त पित्तकारक
नहीं, अग्निको दीपन करनेवाला, रुचिकारक, हृद-
यको हितकारी और मलको रोकनेवाला है ॥ ४३ ॥

द्विविधं तत्तु विज्ञेयं मधुरं चाम्लमेव
च । त्रिदोषघ्नन्तु मधुरमम्लं वातक-
फापहम् ॥ ४४ ॥

अनार मधुर और अम्ल इन भेदोंसे दो प्रकारका है। इनमें मधुर अनार त्रिदोषनाशक और खट्टा अनार वात और कफको नष्ट करता है ॥ ४४ ॥

अश्वत्थोदुम्बरप्लक्ष्म्यग्रोधानां फलानि च । कषायमधुराम्लानि वातलानि गुरूणि च ॥ ४५ ॥

पीपल, गूलर, पाखर और बड़ इनके फल कषैले मधुर, खट्टे, नातनाशक और भारी है ॥ ४५ ॥

वृत्तामारुष्करं स्वादु पित्तघ्नं शोषवह्निकृत ॥ ४६ ॥

भिलावेका डंठल, स्वादु, पित्तनाशक, शोष और अग्निको उत्पन्न करता है ॥ ४६ ॥

अत्यम्लं वातलं ग्राहि जाम्बवं कफपित्तजित् ॥ ४७ ॥

जामुन—अत्यंत अम्ल, वातकारक, मलरोधक तथा कफ और पित्तनाशक है ॥ ४७ ॥

आमं कषायं संग्राहि तिन्दुकं वातकोपनम् । विपाके गुरु सम्पकं मधुरं कफपित्तजित् ॥ ४८ ॥

तेदुका कच्चाफल—कपैला, मलरोधक और वायुको कुपित करता है । तेदुका पकाफल पाकमें भारी, मधुर और कफपित्तको नष्ट करता है ॥ ४८ ॥

मधुरं च कषायञ्च स्निग्धं संग्राहि चालुकम् । स्थिरीकरञ्च दन्तानां बाकुलं फलमुच्यते ॥ ४९ ॥

आलु—मधुर, कपैला, स्निग्ध और मलरोधक है । मौलसिरीका फल दाँतोंको स्थिर करता है ॥ ४९ ॥

अत्यम्लमीषन्मधुरं कषायानुरसं लघु । वातघ्नं पित्तजननमामं विद्यात्परूषकम् ॥ ५० ॥

कच्चाफालसा—अत्यंत अम्ल, किंचित् मधुर, कपैला, हलका, वातनाशक और पित्तको उत्पन्न करता है ॥ ५० ॥

तदेव मधुरं पकं वातपित्तनिर्बहणम् । विपाके मधुरं शीतं रक्तपित्तप्रसादनम् ॥ ५१ ॥

वही पकाफलसा—मधुर, वातपित्तनाशक, पाकमें मधुर, शीतल और रक्तपित्तको शमन करता है ॥ ५१ ॥

पौष्करं स्वादु विष्टम्भि बल्यं कफहरम्परम् ॥

कमलगट्टा—स्वादु, विष्टम्भकारक, बलकारक और कफको दूर करता है ।

कफानिलहरं तीक्ष्णं स्निग्धं संग्राहि दीपनम् । कटुतिक्तकषायोष्णं बालं बिल्वमुदाहृतम् ॥ ५२ ॥

कच्चावेल—कफवातनाशक, तीक्ष्ण, स्निग्ध, मलरोधक अग्निको दीपन करनेवाला, कटु, तिक्त, कषायरसान्वित, और गरम है ॥ ५२ ॥

तदेव विद्यात्संपकं मधुरानुरसं गुरु । विदाहि विष्टम्भकरं दोषकृत्पूतिमारुतम् ॥ ५३ ॥

वही पका हुआ वेल—मधुर, और भारी है । तथा दाहकारक, विष्टम्भकारक, दोषकारक और दुर्गन्धित वायुको करता है ॥ ५३ ॥

पनसं सकषायन्तु स्निग्धं स्वादु हिमं गुरु ॥ ५४ ॥ मौचं स्वादुरसं प्रोक्तं कषायं नातिशीतलम् । रक्तपित्तहरं वृष्यं रुच्यं श्लेष्मकरं गुरु ॥ ५५ ॥

कटहलका फल—कपैला, स्निग्ध, मधुर, शीतल और भारी है । केलेकी फली—मधुर, कपैली, अत्यंत शीतल नहीं, रक्तपित्तनाशक, वृष्य, रुचिकारक कफकारी और भारी है ॥ ५४ ॥ ५५ ॥

फलं स्वादुरसं चैव तालजं गुरुपित्तजित् । तद्बीजं स्वादु पाकञ्च मूत्रलं वातपित्तजित् ॥ ५६ ॥

ताडका फल—मधुर, भारी और पित्तनाशक है । ताडके फलके बीज—मधुर, पाकी, मूत्रजनक और वातपित्तको नष्ट करते हैं ॥ ५६ ॥

हृद्यं मूत्रविबन्धघ्नं पित्तासृग्वातनाशनम् । केश्यं रसायनं मेध्यं काश्मर्यफलमुच्यते ॥ ५७ ॥

कुम्भेरका फल-हृदयको हितकारी, मूत्रके विव-
न्धको दूर करनेवाला, रक्तपित्तनाशक, वातविनाशक,
केशोंको हितकारी, रसायन और मेधाजनक है ॥५७॥

क्षतक्षयापहं हृद्यं बृहणं तर्पणं गुरु ।
स्निग्धं वृष्यं समधुरं खर्जूरं रक्तपित्त-
जित् ॥ ५८ ॥

खजूर-क्षत और क्षयको हरनेवाला, हृदयको
हितकारी, पुष्टिकारक, तृप्तिकारी, भारी, चिकना,
वृष्य मधुर और रक्तपित्तनाशक है ॥ ५८ ॥

बृहणीयमहृद्यञ्च मधूककुसुमं गुरु । वा-
तपित्तप्रशमनं फलं तस्योपदिश्यते ॥ ५९ ॥

महुवेके फूल-पुष्टिकारक, हृदयको अहितकारी
और भारी हैं। महुवेके फल वातपित्तनाशक है ॥ ५९ ॥

कषायं कफपित्तघ्नं किञ्चित्तिक्तं रुचि-
प्रदम् । हृद्यं सुगन्धि साम्लञ्च लव-
लीफलमुच्यते ॥ ६० ॥

लवलीफल (हरफारेवडी) कपायरसान्वित,
कफपित्तनाशक, किञ्चित् तिक्त, रुचिकारक, हृदयको
हितकारी, सुगन्धित और अम्ल है ॥ ६० ॥

शमीफलं गुरु स्वादु रूक्षोष्णं कफ-
नाशनम् । गुरु श्लेष्मातकफलं कफ-
कृन्मधुरं हिमम् ॥ ६१ ॥

छोंकरके (जडीके) फल-भारी, मधुर, रूक्ष,
गरम और कफ नाशक हैं । लिसोडे भारी, कफकारी,
मधुर और शीतल हैं ॥ ६१ ॥

करञ्जकिंशुकारिष्टफलं जन्तुप्रमेहलु-
त । प्रियालमज्जा मधुरो वृष्यः पि-
त्तानिलापहः ॥ ६२ ॥

करंज, टाक और नीमके फल-कृमि और प्रमेह-
रोगनाशक हैं । चिरौजी की मींग-मधुर, वृष्य, तथा
पित्त और वातको नष्ट करती है ॥ ६२ ॥

वैभीतको मदकरः कफवातविना-
शनः । कषायो मधुरो मज्जा कोला-
नां पित्तनाशनः ॥ ६३ ॥

वैहडेकी मींग-मदकारक और कफवातनाशक, है।
बैरोकी मींग-कषैली, मधुर और पित्तनाशक है ॥ ६३ ॥

तृष्णाच्छर्द्यानिलघ्नश्च तद्वदामलकस्य च ।

आमलेकी मींगके गुण भी इसीके समान जानने
विशेष करके तृषा, वमन और वायुको शमन करती है।

बीजपूरकसंपाको मज्जा कोशाम्रस-
म्भवः । स्वादुपाकोऽग्निबलदः स्नि-
ग्धः पित्तानिलापहः ॥ ६४ ॥

विजैरेनीचूकी मींग, अमलतासकी मींग और को-
शाम्रकी मींग-पाकमें मधुर, अग्निजनक, बलदायक
स्निग्ध और पित्तवातनाशक है ॥ ६४ ॥

शीतं कषायमधुरं टङ्कं मारुतकृद्गुरु
॥ ६५ ॥

टंकफल-शीतल, कषैला, मधुर, वातकारक और
भारी है ॥ ६५ ॥

यस्य यस्य फलस्येह वीर्यम्भवति
यादृशम् । तस्य तस्यैव वीर्येण मज्जा-
नमपि निर्दिशेत् ॥ ६६ ॥


जिस जिस फलका जैसा जैसा वीर्य होता है ।
उस उसकी मज्जाकोभी उसीके वीर्यके अनुसार गुण
जानने ॥ ६६ ॥

धान्येषु मांसेषु फलेषु चैव शाकेषु
चालुक्तमपि प्रभोहात् । आस्वादतो
भूतगुणैर्गृहीत्वा तदादिशोद्भव्यमनल्प-
बुद्धिः ॥ ६७ ॥

धान्यवर्ग, मांसवर्ग, फलवर्ग और शाकवर्गमें जो
बहुतसे धान्य, मांस, फल और शाक आदि बुद्धिके
दोषसे नहीं कहे हैं, उनके बुद्धिमान् वैद्य स्वादके
द्वारा उत्पन्न हुए गुणोंको जानकर यथाविधिसे प्रयोग
करे ॥ ६७ ॥

इति श्रीबंगसेने भाषाटीकायां शाकफलवर्गा-
धिकार समाप्त ॥ ९० ॥

अथ व्यंजनमांसव्यंजनाधिकारः ।



वातश्लेष्महरश्चैव रक्तपित्तप्रदूषणम् ।
अग्निसन्दीपनं हृद्यमुष्णान्नं तु प्रशस्य-
ते ॥ १ ॥

उत्तम चावलोंके द्वारा सिद्ध किया हुआ गरमा-
गरम भात-वातनाशक, रक्तपित्तको दूषित करने-
वाला अग्निको दीपन करनेवाला, हृदयको हितकारी
और उत्तम है ॥ १ ॥

धौतः सुविमलः शुद्धो मनोज्ञः सु-
रभिः समः । स्वित्रः सुप्रस्तुतस्तूष्णो
विशदश्चोदनो लघुः ॥ २ ॥

धुले हुए, स्वच्छ शुद्ध, मनोहर और सुगंधित ऐसे
सूक्ष्म चावलोंको पकाकर मांड निचोड़ हुआ गरमा-
गरम भात विशद और हलका है ॥ २ ॥

शीतलं तर्पणं हृद्यं मधु श्रमहरं प-
रमालघु द्रुतविपकन्तु सद्योऽन्नं वारि-
भावितम् ॥ ३ ॥

तत्काल सिद्ध किया हुआ और जलसे धोया हुआ
भात-शीतल, तृप्तिकारक, हृदयको हितकारी, मधुर,
श्रमनाशक, हलका और शीघ्र पचनेवाला है ॥ ३ ॥

त्रिदोषकोपनं रूक्षं मलकून्मूत्रशोध-
नम् । स्वादु मेदः कफोत्क्लेदि वार्यन्नं
निशि संस्थितम् ॥ ४ ॥

जलयुक्त और रात्रिमें रक्खा हुआ बासी भात-
त्रिदोषको कुपित करनेवाला, रूखा, मलकारक,
मूत्रशोधक, मधुर, मेद और कफको उत्क्लेदित
करता है ॥ ४ ॥

मधुरं शीतलं साम्लं तृष्णाघ्नं दीपनं
परम् । आमघ्नं तर्पणं हृद्यं घोलभक्तं
राचिप्रदम् ॥ ५ ॥

घोलयुक्त भात-मधुर, शीतल, अम्ल, तृष्णा-
शक, अग्निप्रदीपक, आमनाशक, तृप्तिकारक, हृद-
यको हितकारी और रुचिकारक है ॥ ५ ॥

भोजनाग्रे सदा पथ्यं जिह्वाकण्ठवि-
शोधनम् । अग्निसन्दीपनं हृद्यं लव-
णार्द्रकभक्षणम् ॥ ६ ॥

भोजनसे पहिले लवणके साथ अदरखको भक्षण
करना सदैव पथ्य है । यह जिह्वा और कंठको शुद्ध
करता, अग्निको दीपन करता और हृदयको हितकारी
है ॥ ६ ॥

वातश्लेष्महरं रुच्यं दीपनं पाचनं
परम् । विशेषादामवातघ्नं लवणं
काञ्जिकार्द्रकम् ॥ ७ ॥

लवण और काँजीयुक्त अदरख-वातकफनाशक,
रुचिकारक, अग्निप्रदीपक, पाचन और विशेषकरके
आमवातनाशक है ॥ ७ ॥

दीपनं तर्पणं रुच्यमाभघ्नमनुलोमन-
म् । मन्दाग्नीनां सदा पथ्यं बिल्वं
काञ्जिकसंस्थितम् ॥ ८ ॥

काँजीमें पड़ा हुआ बेल अग्निप्रदीपक, तृप्तिकार, रुचि-
कारक, आमनाशक वातादि दोषोंको अनुलोमन कर-
नेवाला और मंदाग्निवाले रोगियोंको सदैव पथ्य है ८ ।

कषायो मधुरो रूक्षः शीतः पाके
कटुर्लघुः । श्लेष्मपित्तप्रशामनो सुहृयू-
षोत्तमो मतः ॥ ९ ॥

मूँगका चूप उत्तम, कषैला, मधुर, रूखा, शीतल,
पाकमें कटु, हलकी और कफ, पित्तको शमन करने
वाला है ॥ ९ ॥

सुस्विन्नो निस्तुषो भृष्ट ईषत्सूषो ल-
घुर्मतः । माषः समधुरो रुच्यो वि-
दाही चाम्लापित्तकृत् ॥ १० ॥

छिलकेरहित और कुछ एक मुनी हुई ऐसी सीजी
हुई मूँगकी दाल-हलकी है । उबदकी दाल अथवा
उबद-मधुर, रुचिकारक, दाहजनक और अस्त्वपि-
त्तको कुपित करते हैं ॥ १० ॥

वातघ्नो दीपनश्चैव चाम्लमाषो गुरुः
सरः । स्वित्रं निष्पीडितं शाकं हितं
स्यात्स्नेहसंस्कृतम् ॥ ११ ॥ वातपि-
त्तहरं वृष्यं पुष्टिकृद्बलवर्द्धनम् । क-

फमेदोऽनिलहरं सरं सुलघु दीप-
नम् ॥ १२ ॥

अम्लमाप (खटाईयुक्त उदद) वातनाशक
दीपक, भारी और सारक है। सीजा हुआ और निचो-
टा हुआ तथा स्नेह (तेल, घृतादि) के द्वारा भुना हुआ
शाक-हितकारक, वातपित्तनाशक, वृष्य, पुष्टिकारक
और बलवर्द्धक है। तथा कफ, मेद और वातनाशक,
सारक और हलका एवं अग्नि को दीपन करनेवाला
है ॥ ११ ॥ १२ ॥

वार्त्ताकं पित्तलं किञ्चिदङ्गारपरिपा-
चित्तम् । हितं ततो गुरुतरं सतैलं
लवणान्वितम् ॥ १३ ॥

अंगारोंपर भुने हुए वैगुन-किञ्चित् पित्तकारक है।
तेलके द्वारा भुने हुए और लवणयुक्त वैगुन हितका-
रक और अत्यंत भारी है ॥ १३ ॥

वृद्धं कूष्माण्डकं स्वित्रं घृतभृष्टं सुपा-
चित्तम् । पक्वं चिश्वाफलं तक्रं शुडयुक्तं
सुभावितम् । त्रिकटुत्रिसुगन्धिभ्यां
मोदितं दोषनाशनम् ॥ १४ ॥

जलमें सीजा हुआ और घृतमें भुना हुआ तथा
अच्छेप्रकारसे पकाया हुआ एवं पक्व इमली, तक्र और
गुडके द्वारा भावना दिया हुआ तथा त्रिकुटा और
त्रिसुगंधिसे युक्त ऐसा पुराना पेठा त्रिदोषनाशक
है ॥ १४ ॥

सुस्वित्तमत्रौ घृतपाचितश्च गुडान्वि-
तं क्षीरविलोडितश्च । त्रिजातयुक्तं
च सकेसरं च दुग्धाम्रमेतत्परिकी-
र्तितश्च ॥ १५ ॥

अग्निके द्वारा सीजा हुआ घृतके द्वारा पकाया हुआ
गुडयुक्त और दूधमें आलोडित किया हुआ, त्रिसुगंधि
और नागकेशरसे युक्त इस प्रकार सिद्ध किये हुये
आमको दुग्धाम्र कहते हैं ॥ १५ ॥

वृष्यश्च पुष्टिश्च करोति कान्तिं नि-
षेव्यमाणं बलमादधाति ॥ १६ ॥

यह दुग्धाम्र-वृष्य, पुष्टिकारक, तथा कान्ति और
बलको उत्पन्न करता है ॥ १६ ॥

लघवो बृंहणा रुच्याऽर्छिर्दिग्ना राग-
पाण्डवः । रसाला पाचनी वृष्या
वातहृत्सगुडं दधि ॥ १७ ॥

रागपाण्डव-हलका, पुष्टिकारक, रुचिकारक और
वमनको दूर करता है। रसाला-पाचन और वृष्य
है, गुडयुक्त दही वातनाशक है ॥ १७ ॥

गुरवः पैष्टिका भक्ष्या बृंहणा वात-
नाशनाः । वातपित्तहरो वृष्यो घृत-
पूरोऽग्निनाशनः ॥ १८ ॥

पैष्टिका अर्थात् बने हुए पकान्न और मिष्ठान-पुष्टि-
कारक और वातनाशक है। घृतपूर (घेवर)
वातपित्तनाशक, वृष्य और अग्निनाशक हैं ॥ १८ ॥

बृंहणाः समिता भक्ष्या बल्याः पित्ता-
निलापहाः । पिशितैर्वेशवाराद्यैः सं-
पूर्णा गुरुतर्पणाः ॥ १९ ॥

मदाके बने हुए पदार्थ-बृंहण, बलकारक और
पित्तवातनाशक हैं। मांसके बने हुए सम्पूर्ण वेशवा
रादि पदार्थ-भारी और तृप्तिकारक हैं ॥ १९ ॥

द्विदलाः श्लेष्मला ज्ञेया गुरवो भि-
न्नवर्धसः । वातपित्तहरा वर्ण्या दृ-
ष्टिदा घृतपाचिताः ॥ २० ॥

द्विदलवाले अन्नोके बनाये हुए पदार्थ-कफकारक,
भारी और मलको करनेवाले हैं। घृतके बनाए हुये
पदार्थ-वातपित्तनाशक, वर्णकारक और दृष्टि-
जनक है ॥ २० ॥

भक्ष्यास्तैलकृता दृष्टिवातघ्नाः पित्त-
कोपनाः । तोयेनालोडिता भक्ष्याः
स्विन्नाश्चाम्भसि दुर्जराः ॥ २१ ॥

तेलके बने हुये पदार्थ-दृष्टि और वातनाशक तथा
पित्तको कुपित करते हैं। जलमें आलोडित किये हुये
तथा जलमें सीजे हुये पदार्थ-दुर्जर (अर्थात् देरमें
जर्ण) होते हैं ॥ २१ ॥

गुरवो बृंहणा वृष्या ये च क्षीरोपसा-
धिताः । अत्युष्णा मण्डलाः पच्याः
शीतला गुरवो मत्ताः ॥ २२ ॥

दूधके द्वारा अथवा दूधके विकारोंके द्वारा सिद्ध-
किये हुए पदार्थ-भारी, पुष्टिकारी और वीर्यवर्द्धक
है । मण्डला-अत्यंत उष्ण, पाच्य शीतल और भारी
है ॥ २२ ॥

लाजाशुद्धिर्द्विराः शीता वृष्या गुर्वी
च शङ्कुली ।

खीलै-वमननिवारक और शीतल है । शङ्कुली-
(पूरी) वृष्य और भारी है ॥

पिष्टकं गुरु विष्टम्भि विदाहि कफ-
पित्तलम् ॥ २३ ॥

पिष्टकपदार्थ-भारी, विष्टम्भकारी, दाहजनक
और कफपित्तकारक है ॥ २३ ॥

कपालाङ्गारपक्वाः स्युः किञ्चिल्लघु-
तराश्च ते । कुल्माषा वातला रूक्षा
गुरवो भिन्नवर्चसः ॥ २४ ॥

खीपडे या तवेपर अथवा अंगारोंपर पकाये हुए
पदार्थ(रोटी,वाटी इत्यादि) पिष्टक (घृतादिके द्वारा
पकाये हुए पक्वान्न) पदार्थोंकी अपेक्षा किञ्चित् अधिक
हलके है । कुल्माष (घुघुरी)-वातकारक, रूखे,
भारी और मलकारक है ॥ २४ ॥

शक्तवो वातला रूक्षा वातवर्चो-
ऽनुलोमिनः । तपर्यन्ति नरं शीघ्रं
पीताः सद्यो बलाश्च ते ॥ २५ ॥

सत्तू-वातकारक, रूखे, वायु और मलको अनुलो-
मन करनेवाले है । तथा शीघ्रही मनुष्यको तृप्त करते
हैं और पान करते ही तत्काल शरीरमें बलका उत्पन्न
करते है ॥ २५ ॥

मधुरा लघवः शीताः शक्तवः शालिः
सम्भवाः । ग्राहिणो रक्तपित्तघ्नास्तृ-
ष्णाच्छुद्धिर्ज्वरापहाः ॥ २६ ॥

शालिधानोंकी खीलोंके सत्तू-मधुर, हलके, शीतल
मलरोधक, रक्तपित्तनाशक, तृष्णा, वमन और ज्वरको
दूर करते है ॥ २६ ॥

पूपका वा यवैर्घोलमोदकाः पित्तना-
शनाः । विष्टम्भी पायसो बल्यो मे-
दः कफकरो गुरुः ॥ २७ ॥

पूपक (पूये) अथवा जौके घोलके बनाये हुए
मोदक-पित्त नाशक है । खीर-विष्टम्भकारक, बल-
कारक, मेद और कफकारी तथा भारी है ॥ २७ ॥

कफपित्तकरा बल्या कृशराऽनिल-
नाशिनी । पाचनो दीपनः पथ्यो
मण्डः स्याद्दृष्टतण्डुलैः ॥ २८ ॥

खिचडी-कफ, पित्तकारक, बलकारक और वायु-
को शमन करती है । मुने हुये चावलोंका माँड-
पाचक, दीपन और पथ्य है ॥ २८ ॥

लाजमण्डो विशुद्धानाम्पथ्यः पाच-
नदीपनः । वातानुलोमनो हृद्यः पि-
प्लीनागरायुतः ॥ २९ ॥

खीलोंका माँड-वमन, विरेचनादिसे शुद्ध शरीर-
वाले मनुष्योंको-पथ्य, पाचन और अग्निप्रदीपक है ।
तथा उसमें पीपल और सोंठका चूर्ण डालकर सेवन
किया जाय तो वातको अनुलोमन करता है और
हृदयको हितकारी है ॥ २९ ॥

वातानुलोमनी लघ्वी सोष्णा तन्वी
ज्वरापहा । ग्राहिणी तर्पिणी हृद्या
विलेपी बलवर्द्धिनी ॥ ३० ॥

विलेपी-वातको अनुलोमन करनेवाली, हलकी,
उष्णा, गरम, सूक्ष्म, ज्वरनाशक, मलरोधक, तृप्ति-
कारक, हृदयको हितकारी और बलवर्द्धक है ॥ ३० ॥

शाकमांसफलैर्युक्ता विलेप्याऽम्लाश्च
दुर्जराः । दाडिभामलकैर्यूषो वह्नि-
कृद्वातपित्तहा ॥ ३१ ॥

शाक, मांस और फलयुक्त विलेपी अम्ल और
दुर्जर है । अनार और आमलोंका यूष-अग्निजनक
और वातपित्तनाशक है ॥ ३१ ॥

श्वासकासप्रतिश्यायकफघ्नो मूलकैः
कृतः । यवकोलकुलित्थानां यूषः क-
ण्ठयोऽनिलापहः ॥ ३२ ॥

मूलीका यूष-श्वास, खोंसी, प्रतिश्याय और
कफनाशक है । जौ, वेर और कुलथीका यूष-कंठको-
हितकारी और वातनाशक है ॥ ३२ ॥

कपित्थतक्रचांगेरी मरिचाजाजिचि-
त्रकैः । कफवातहरो ह्येष खण्डो दीप-
नपाचनः ॥ ३३ ॥

कैथ, तक्र, चांगेरी, कालीभिरच, जीरा और
चीता इनके द्वारा सिद्ध किये हुये चूपको खण्डचूप
अथवा खंडचूप कहते हैं । यह खंडचूप-दीपन पाचन
तथा कफवातनाशक है ॥ ३३ ॥

प्राणनः प्राणजनकः श्वासकासक्ष-
यापहः । रक्तपित्तश्रमहरो ह्यसौ मां-
सरसः स्मृतः ॥ ३४ ॥

मांसरस (सोरुअ) तृप्तिकारक, प्राणजनक,
श्वास, खांसी और क्षयको दूर करनेवाला, रक्तपित्त
और श्रमनाशक तथा हृदयको हितकारी है ॥ ३४ ॥

रोचनी पाचनी ह्यस्या स्नाम्ना वात-
कफापहा । जम्भीरसाधिता चैव क-
लम्बी च निगद्यते ॥ ३५ ॥

जम्भीरीनीचूके द्वारा सिद्ध किये हुये चूपको कल-
म्बी कहते हैं । कलम्बी-रुचिकारक, पाचन, हृदयको
हितकारी, अम्ल और वातकफनाशक है ॥ ३५ ॥

अम्लं समधुरं ह्यद्यं रोचनं वातको-
पनम् । वार्त्ताकं दीपनं ह्यद्यं तित्तिडी-
गुडसाधितम् ॥ ३६ ॥

इमली और गुडके द्वारा सिद्ध किये हुये वैगुन-
अम्ल, मधुर, हृदयको हितकारी, रुचिकारक, वातप्र,
कोपक और अम्लको दीपन करते हैं ॥ ३६ ॥

रक्तपित्तहरं रुच्यं स्नेहेन परिभावि-
तम् । वातपित्तहरं बल्यं रोचनं वह्नि-
दीपनम् ॥ ३७ ॥

स्नेह (घृतादि) के द्वारा भावना दिये हुए वैगुन-
रक्तपित्तनाशक, वातपित्तनाशक, बलकारक, रोचक
और अग्निप्रदीपक है ॥ ३७ ॥

संग्राहि पुष्टिदं ज्ञेयं कदलीमूलसाधि-
तम् ।

केलेकी जड़के द्वारा सिद्ध किये हुए वैगुन-मल-
रोचक और पुष्टिकारक है ।

कृमिकुष्ठहरं रुच्यं हरिद्रानाडिका-
युतम् ॥ ३८ ॥

हलदी और नाडिके शाकके द्वारा सिद्ध किये हुए
वैगुन-कृमि, कुष्ठनाशक तथा रुचिकारक है ॥ ३८ ॥

सुगन्धिमधुरं सारलं दुर्जरं तक्रभावि-
तम् ।

तक्रके द्वारा भावना दिये हुए वैगुन-सुगंधित,
मधुर और दुर्जर है ।

रुच्यं वातहरश्चैव नागरंगस्यैकस-
रम् ॥ ३९ ॥

नारंगीके रसके द्वारा सिद्ध किये हुए वैगुन-रुचि-
कारक और वातनाशक है ॥ ३९ ॥

ईषत्तित्तं समधुरं ह्यद्यं रोचनदीपनम् ।
वार्त्ताकं कटुकं पाके सतीनदलसा-
धितम् ॥ ४० ॥ वातलं रोचनं ह्यद्यं
कलायदलसाधितम् ।

मटरके पत्तोंके द्वारा सिद्ध किये हुए वैगुन-रुचि-
तित्त, मधुर, हृदयको हितकारी, रुचिकारक, अग्नि-
प्रदीपक और पाकमे कटुक है । खसारीके पत्तोंके
द्वारा सिद्ध किये हुए वैगुन-वातकारक, रुचिकारक,
और हृदयको हितकारी है ॥ ४० ॥

अम्लं समधुरं ह्यद्यं रोचनं कण्ठशोध-
नम् । वातघ्नं दुर्जरं चैव नष्टक्षरिप्रसा-
धितम् ॥ ४१ ॥

फटे हुए दूबके द्वारा सिद्ध किये हुए वैगुन-अम्ल,
मधुर, हृदयको हितकारी, रुचिकारी, कण्ठशोधक,
वातनाशक और दुर्जर है ॥ ४१ ॥

दुर्जरा मधुरा रुच्या वटका माषकादि-
भिः ।

उडद आदिके बडोके द्वारा सिद्ध किये हुए वैगुन-
दुर्जर, मधुर, और रुचिकारक है ।

चिञ्चाफलेन संसिद्धा रोचनाश्च वि-
शेषतः ॥ ४२ ॥

इमलीके द्वारा सिद्ध किये हुये वैगुन विशेष कर रुचिकारक होते हैं ॥ ४२ ॥

**कफवातहरं रुच्यं दीपनं चानुलोम-
नम् । ज्वरितानां हितं मांसं पटोल-
फलसाधितम् ॥ ४३ ॥**

पटोल (परवल) के फलोके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस कफवातनाशक, रुचिकारक, अग्निप्रदीपक, वातानुलोमक और ज्वररोगियोंको विशेष हितकारी है ॥ ४३ ॥

**रक्तपित्तविसर्पघ्नं कुष्ठमेहज्वरापहम् ।
रोचनञ्च विशेषेण वेत्राप्रपरिसाधि-
तम् ॥ ४४ ॥**

वेतके अग्रभागके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस रक्तपित्तनाशक, विसर्पहारक, कोढ़, प्रमेह और ज्वरको दूर करनेवाला तथा विशेष करके रुचिकारक है ॥ ४४ ॥

**वातश्लेष्महरं रुच्यं दीपनं चानुलो-
मनम् । ज्वरकुष्ठहरं मांसं ह्रस्ववार्त्ता-
कुसाधितम् ॥ ४५ ॥**

छोटे वैगुनोके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस वातकफनाशक, रुचिकारक, अग्निप्रदीपक, वातानुलोमक तथा ज्वर और कुष्ठको नष्ट करता है ॥ ४५ ॥

**कफपित्तप्रशमनं ज्वरकुष्ठविनाशन-
नम् । कृमिमेहहरं हृद्यं मांसं केम्बु-
कसाधितम् ॥ ४६ ॥**

केम्बुकके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस कफपित्तनाशक, ज्वर और कुष्ठनाशक, कृमि तथा प्रमेहको दूर करनेवाला और हृदयको हितकारी है ॥ ४६ ॥

**कफवातहरं हृद्यं तृष्णारोचकनाशन-
म् । श्रमघ्नं तर्पणं मांसं सिद्धं बदर-
शुण्ठकैः ॥ ४७ ॥**

बैरोके गूदेके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस-कफवातनाशक, हृदयको हितकारी तृषा और भस्त्रिनाशक, श्रमनिवारक और तृप्तिकारक है ॥ ४७ ॥

**आर्द्रामामलकैः सिद्धं त्रिदोषशमनं
लघु । ज्वरहृच्चाममेदोघ्नं मांसं वह्निप्र-
दीपनम् ॥ ४८ ॥**

अदरग्न और आमलोके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस त्रिदोषनाशक, हलका, ज्वर, आम और मेदको नष्ट करता है तथा अग्निको दीपन करता है ॥ ४८ ॥

**वातश्लेष्महरं हृद्यमनुलोम्यग्निदीप-
नम् । गलरोगप्रशमनं शुष्काक्षफल-
साधितम् ॥ ४९ ॥**

सूखे आमके फलोके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस वातकफनाशक, हृदयको हितकारी, वातानुलोमक, अग्निप्रदीपक और गलरोगको शमन करता है ॥ ४९ ॥

**रुच्यं प्रीतिकरं हृद्यं मांसमात्रेण सा-
धितम् । कफपित्तप्रशमनं व्रणशोध-
नरोपणम् ॥ ५० ॥**

आमके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस-रुचिकारक, प्रीतिजनक, हृदयको हितकारी कफपित्तनाशक तथा व्रणको शुद्ध करनेवाला और भरनेवाला है ॥ ५० ॥

**अग्निसन्दीपनं मांसं कारवेष्टकसाधि-
तम् । कफवातहरं हृद्यं दीपनं चानु-
लोमनम् ॥ ५१ ॥**

करलेके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस-अग्निप्रदीपक कफवातनाशक, हृदयको हितकारी, दीपन और अनुलोमक है ॥ ५१ ॥

**रोचनं बलकृन्मांसं बालभूलकसाधि-
तम् ।**

छोटी मूलीके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस रुचिकारक और बलवर्द्धक है ।

**प्रक्षीणबलमांसस्य वातेनाभिहतस्य
च ॥ ५२ ॥ रुच्यं पुष्टिकरं हृद्यं मृग-
मांसं हितं नृणाम् । वातहृद्गलगण्डा-
स्यरोगशोथविनाशनम् ॥ ५३ ॥**

मृगका मांस-जिनके बल और मांस क्षीण हो गया है, जो वातसे पीड़ित हैं, उन मनुष्योंके लिये यह अति-

हितकारी है तथा रुचिकारी; पुष्टिमारक, हृदयको हितकारी वातनिवारक, एवं गलगण्ड, मुखरोग और शोथको दूर करता है ॥ ५२ ॥ ५३ ॥

स्नेहनं रोचनं दीप्यं मांसं दाधिकमु-
च्यते । मांसन्तु कफपित्तघ्नं तोडका
दिरसाधिकम् ॥ ५४ ॥

वहीके साथ मांस-स्नेहन, रुचिकारक और अग्निको दीपन करता है । तोड आदि मिश्रित मांस कफपित्तनाशक है ॥ ५४ ॥

कासश्वासहरं हृद्यं चक्षुष्यं स्वरवर्ण-
दम् । हृद्यं वातहरं रुच्यं वृष्यं पुष्टि-
बलप्रदम् ॥ ५५ ॥ श्रेष्ठं पथ्यतमं
मांसं करमर्दकसाधितम् । शूलघ्नं
दीपनं मांसं सिद्धं चिञ्चाफलेन तु ॥
कफपित्तहरं रुच्यं बालचिञ्चाकसा-
धितम् ॥ ५६ ॥

करौदेके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस खाँसी और श्वासको हरनेवाला, हृदयको हितकारी, नेत्रोंको हितकारी, स्वर और वर्णको बढानेवाला, वातनाशक, रुचिकारक, वृष्य, पुष्टि और बलकारक तथा अत्यन्त पथ्य है । इमलीके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस-शूलनाशक, और अग्निप्रदीपक है एवं कच्ची इमलीके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस-कफपित्तनाशक और रुचिकारक है ॥ ५५ ॥ ५६ ॥

रुच्यं कफानिलहरं विबन्धानाहभे-
दनम् । शूलघ्नं दीपनं हृद्यं पक्वचिञ्चा-
फलेन तु ॥ ५७ ॥

पक्की इमलीके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस-रुचिकारक, कफवातनाशक, विबन्ध और आनाहको दूर करनेवाला, शूलनाशक, दीपन और हृदयको हितकारी है ॥ ५७ ॥

वातश्लेष्महरं हृद्यमर्शःकुष्ठविनाश-
नम् । विबद्धमषिन्मधुरं मूलकैः सह
जाङ्गलम् ॥ ५८ ॥

मूलीके द्वारा सिद्ध किया हुआ जांगल प्राणियोंका मांस-वातकफनाशक, हृदयको हितकारी, अर्श और कुष्ठको हरनेवाला, मलावरोधक और किंचित् मधुर है ॥ ५८ ॥

वातश्लेष्मानिलहरं मेहकुष्ठविपाप-
हम् । धानूनां बृंहणं वृष्यं करीरैः
सह साधितम् ॥ ५९ ॥

बाँसके अँकुरोंके द्वारा सिद्ध किया हुआ मांस-वात, कफनाशक, प्रमेह, कुष्ठ और विपनाशक, धानुओंको पुष्ट करनेवाला और अर्शविनाशक है ॥ ५९ ॥

गुरुर्विपाके मधुरो रुच्यो मांसवटः
स्मृतः । उदावर्तानिलहरो हृद्यो मूल-
कसाधितः ॥ ६० ॥

मांसवटक-भारी, पाकमें मधुर और रुचिकारक, है । मूलीके द्वारा बनाये हुए मांसके बड़े-उदावर्त और वातनाशक तथा हृदयको हितकारी है ॥ ६० ॥

कफपित्ताविरोधी स्याद्वातार्त्ताकेन प्र-
साधितः । पिष्टः सिद्धः पटोलस्य
पत्रैर्जीर्णज्वरापहः ॥ ६१ ॥

वाँगुनके द्वारा सिद्ध किये हुए मांसके बड़े-कफ पित्तनाशक है । और पटोलपत्रके द्वारा सिद्ध किये हुए पिष्टके बड़े जीर्णज्वरनाशक है ॥ ६१ ॥

कफपित्तहरो रुच्यो ग्रीष्मसुन्दरसा-
धितः ।

ग्रीष्मसुन्दरशाकके द्वारा सिद्ध किये हुए बड़े-कफपित्तनाशक और रुचिकारक है ।

त्रिदोषकोपनं सर्वं पूतिमांसं प्रकी-
र्त्तितम् ॥ ६२ ॥


सर्वप्रकारके दुर्गन्धित मांस-त्रिदोषको कुपित करते है ॥ ६२ ॥

कफपित्तहरं हृद्यं दीपनं कृमिनाशन-
म् । मांसं वाह्निकं विद्यादारिकेन
प्रसाधितम् ॥ ६३ ॥

अदरखके द्वारा पकाया हुआ मांस-कफपित्ताशक, हृदयको हितकारी, दीपन, कृमिनाशक और अग्निको संदीपन करता है ॥ ६३ ॥

इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां व्यञ्जनमांसव्यञ्जनाधिकार समाप्त ॥ ९१ ॥

अथ मत्स्यव्यञ्जनगुणाधिकारः ।



गुरवो बृंहणाः सर्वे मत्स्याः शुक्रबलप्रदाः । विपाके मधुराश्रोष्णाः कफपित्तविवर्द्धनाः ॥ १ ॥ दीप्ताग्नीनां हिताः पुंसां मैथुनप्रतिसेविनाम् । मत्स्यादं नाभिवाधन्ते रोगा वातसमुद्भवाः ॥ २ ॥

प्रायः सर्वप्रकारके मत्स्य-भारी, पुष्टिकारी, शुक्र और बलजनक, पाकमे मधुर, गरम तथा कफ और पित्तको बढ़ाते है जिन मनुष्योंके अग्निदीपन है और जो नित्य मैथुन करते है, उनके लिये मत्स्य अतीव हितकारी है । जो मनुष्य मत्स्यको सदैव सेवन करते है उनके वातजनित रोग कदापि उत्पन्न नहीं होते ॥ १ ॥ २ ॥

मधुरो बृंहणो वृष्यो वातहा वह्निदीपनः । दग्धमत्स्यो रुचिकरो जम्बीरपरिभावितः ॥ ३ ॥

मुनी हुई और जम्बीरी नींबूके रसमें भावना दीहुई मछली-मधुर, पुष्टिकारक, वृष्य, वातनाशक, अग्निदीपन और रुचिकारक है ॥ ३ ॥

दग्धमत्स्यो भवेच्छ्रेष्ठो बलपुष्टिविवर्द्धनः । क्षीणाः क्षताश्च ये केचिद्ये भग्ना जर्जरीकृताः ॥ दग्धमत्स्या हितास्तेषां सतैललवणान्विताः ॥ ४ ॥

दग्धमछली-श्रेष्ठ, बल और पुष्टिवर्द्धक है ज मनुष्य क्षीण व क्षत रोगी है और जिनका शरी भग्नासे जर्जरीभूत हो गया है, उनके लिये ते और लवणयुक्त दग्धमछली अतीव हितकारी है ॥ ४ ॥

हृद्यः प्रीतिकरो रुच्यो वातहृद्दार्कान्वितः ।

अदरखयुक्त मछली-हृदयको हितकारी, प्रातिक्रान्तक, रुचिकारी और वातनाशक है ।

वातानुलोमनो हृद्यः पुष्टिकृद्बलवर्द्धनः । अत्यग्नीनां नृणां शक्तः सस्नेहः शाकमत्स्यकः ॥ ५ ॥

स्नेहयुक्त मछलीका शाक-वातको अनुलोमन करनेवाला, हृदयको हितकारी, पुष्टिकारक, बलवर्द्धक और जिनमनुष्योंकी अग्नि अत्यंत दीपन है, उनका अतीव हितकारी है ॥ ५ ॥

विपाके मधुरो हृद्यो विष्टम्भी वानकोपनः । रोचनस्तु विशेषेण मूलकेन प्रसाधितः ॥ ६ ॥

मूलीके द्वारा सिद्ध कीहुई मछली-पाकमे मधुर, हृदयको हितकारी, विष्टम्भकारक, वातप्रकोपक और विशेषकरके रुचिकारक है ॥ ६ ॥

आरेवतैः सिद्धमत्स्य आमवातविनाशनः । कटिशूलहरः सम्यग्विद्विष्टन्धेऽर्शां हितः ॥ ७ ॥

आरेवत(अमलतास) नामक वृक्षके फलके द्वारा सिद्ध कीहुई मछली-आमवातनाशक कटिशूलनाशक, तथा मलवद्धता और अर्शरोगमे अत्यंत हितकारी है ॥ ७ ॥

कफवातहरो हृद्यो दीपनो भक्तरोचनः । आरनालशृतो मत्स्यो हृद्यश्चैव गुणोत्तरः ॥ ८ ॥

आरनाल नामक कांजीके द्वारा सिद्ध की हुई मछली-कफवातनाशक, हृदयको हितकारी, अग्निप्रदीपक, भोजनमें रुचिकारक और अत्यंतगुणयुक्त है ॥ ८ ॥

वातश्लेष्महरो हृद्यो दीपनो भक्तरोचनः । अम्लैस्तु संस्कृतो मत्स्यो विवन्धानिलनाशनः ॥ ९ ॥

खटाईके द्वारा सिद्ध कीहुई मछली-वातकफनाशक, हृदयको हितकारी दीपन, भोजनमे रुचि करनेवाली तथा विवन्ध और वायुकी पीडाको शांत करती है ॥ ९ ॥

विष्टम्भी रोचनो हृद्यो राजमापप्र-
साधितः ।

लोवियेके द्वारा सिद्ध की हुई मछली-विष्ट-नाज-
रक, रुचिकारक और हृदयको हितकारी है ।

कफघ्नः पित्तशामनो हृद्यः पथ्योऽग्नि-
वर्द्धनः । शोथसंशमनश्चैव जत्स्यो
वार्त्ताकुलाधितः ॥ १० ॥

वेगुनके द्वारा सिद्ध की हुई मछली-कफनाशक
पित्तनाशक, हृदयको हितकारी, पथ्य, अग्निवर्द्धक
और सूजनको दूर करती है ॥ १० ॥

अम्लीकया शृतो मत्स्यो विबन्धाना-
हशूललुत ॥ ११ ॥

इमलीके द्वारा सिद्ध की हुई मछली-विबन्ध, आना-
ह और शूलको नष्ट करनेवाली है ॥ ११ ॥

दधितक्रारनालैश्च सिद्धा मत्स्या
रुचिप्रदाः ॥ १२ ॥

दही, तक्र और आरनाल (वाजी) के द्वारा
सिद्ध की हुई मछली-रुचिकारक है ॥ १२ ॥

त्रिदोषशमनी हृद्या रुच्या पुष्टिवि-
वर्द्धिनी । मधुरा कटभी प्रोक्ता स-
तीनदलसाधिता ॥ १३ ॥

मटरके पत्तोमे सिद्ध की हुई मछली-त्रिदोषनाशक,
हृदयको हितकारी, रुचिकारक, पुष्टिजनक और
मधुर है ॥ १३ ॥

वातहा रोचनो हृद्यः पालंक्ष्येन प्रसा-
धितः । वातघ्नो गुरुहृद्यस्तु मत्स्य-
घण्टो बलप्रदः ॥ १४ ॥

पालकके शाकके द्वारा सिद्ध की हुई मछली-वात-
नाशक, रुचिकारक और हृदयको हितकारी है ।
तथा मत्स्यघट वातनाशक, भारी, रुचिकारी और
बलवर्द्धक है ॥ १४ ॥

विष्टम्भी भिन्नवर्चास्तु शाकघण्टो
बलप्रदः । रोचनो मधुरो हृद्यः पि-
त्तघ्नः शीर्णवृन्तयुक् ॥ १५ ॥

मछलीका शाकघट विष्टम्भकारक, मलकारक
और बलकारक है । तरनूजके द्वारा सिद्ध की हुई
मछली-रुचिकारक, मधुर, हृदयको हितकारी और
पित्तनाशक है ॥ १५ ॥

मूत्रलो गुरुपाकश्च ज्यथितो दधिम-
त्स्यकः । कफपित्तहरो रुच्यः कर्को-
टेन प्रसाधितः ॥ १६ ॥

दहीके साथ सिद्ध की हुई मछली-मूत्रजनक और
गुरुपाकी है । कर्कोटेके द्वारा सिद्ध की हुई मछली-
कफपित्तनाशक और रुचिकारक है ॥ १६ ॥

कर्कटी मधुरा हृद्या रुच्या मत्स्येन
साधिता । कफपित्तहरी रुच्या नि-
स्वेन परिपाचिता ॥ १७ ॥

ककड़ीके द्वारा सिद्ध की हुई मछली-मधुर, हृदयको
हितकारी और रुचिजनक है । नीमके पत्तोंके द्वारा
सिद्ध की हुई मछली-कफपित्तनाशक और रुचिकारी
है ॥ १७ ॥

मधुरो रोचनो हृद्यो मत्स्यः कृष्मांड-
घण्टितः ॥ १८ ॥

पेठेकी घण्टेके द्वारा सिद्ध की हुई मछली-मधुर,
रुचिकारक और हृदयको हितकारी है ॥ १८ ॥

मूत्रला भिन्नविट्का च गुर्वी रुच्या
कफापहा । अलावूर्मधुरा प्रोक्ता नि-
र्गुण्डीसाधिता दुर्धेः ॥ १९ ॥

अलावू (लौकी) और निर्गुण्डीके द्वारा सिद्ध की
हुई मछली-मूत्रजनक, मलकारक, भारी, रुचिकारी
कफनाशक और मधुर है ॥ १९ ॥

रोचनः कफपित्तघ्नः केम्बुनाडीप्रसा-
धितः । रोचनः कफहृत्क्षयः कृष्मा-
ण्डाग्रप्रसाधितः ॥ २० ॥

केसुककी नाडीके द्वारा सिद्ध की हुई मछली-रुचि-
कारक और कफपित्तनाशक है । पेठेके अग्रभागके
द्वारा सिद्ध की हुई मछली-रुचिकारक और कफ-
नाशक है ॥ २० ॥

कषाय ईषन्मधुरो रुच्यो हृद्यः कफा
पहः । तृष्णाघ्नो गुरुपाकश्च कदली-
नाडिकाशृतः ॥ २१ ॥

केलेके मोचेके सिद्ध की हुई मछली-कपैली' किंचित् मधुर, रुचिकारक हृदयको हितकारी, कफ-नाशक, तृपानाशक और गुरुपाकी है ॥ २१ ॥

कफघ्नः कटुकः पाके पिच्छिलो दी-
पनः परम् । रुच्यः पित्तहरो ज्ञेयः
पिप्पलीनाडिकाशृतः ॥ २२ ॥

पीपलके वृक्षकी नाडीके द्वारा सिद्ध कीहुई मछली-कफनाशक, पाकमे कटु, पिच्छिल, अग्निप्रदी-
पक रुचिकारक और पित्तनाशक है ॥ २२ ॥

मधुरो रोचनो हृद्यो दृष्टिवह्निविना-
शनः । ज्ञेयः सिद्धफलेनैव साधितः
कृमिवर्द्धनः ॥ २३ ॥

सिद्धफलके द्वारा सिद्ध की हुई मछली-मधुर, रुचि-
कारक, हृदयको हितकारी तीर्थो दृष्टि और अग्निको
नष्ट करती है एवं कृमिवर्धक है ॥ २३ ॥

वातघ्नो मधुरो वृष्यो रोचनः शिबि-
साधितः ॥ २४ ॥

सेमके द्वारा सिद्ध कीहुई मछली-वातनाशक,
मधुर, वृष्य और रुचिकारक है ॥ २४ ॥

कफपित्तहरस्तित्तो रोचनस्तु विशे-
षतः । शुष्कपत्रेण मत्स्याभ्लः सर्वेषां
परिकीर्तितः ॥ २५ ॥

सूखे पत्तोंके द्वारा सिद्ध कीहुई मछली-कफपित्त-
नाशक, तिक्त, विज्ञेयहरके रुचिकारक एवं अम्ल है
॥ २५ ॥

अर्शाघ्नो दीपनो ग्राही रुच्यो मधुर-
पाकतः । कफवातामशूलघ्नश्चाङ्गेरी-
तक्रसाधितः ॥ २६ ॥

चोंगेरी और तक्रके द्वारा सिद्ध कीहुई मछली-अर्श-
नाशक, दीपन, मलरोधक, रुचिकारी, मधुरपाकी
तथा कफ, वात और आमशूलको नष्ट करती है ॥ २६ ॥

संग्राही दीपनो हृद्यो रुच्यो वाता-
नुलोमनः । कफवातहरः साम्लस्ति-
न्तिडीकप्रसाधितः ॥ २७ ॥

इमलीके द्वारा सिद्ध कीहुई मछली-मलरोधक
अग्निप्रदीपक, हृदयको हितकारी, रुचिजनक, ता-
नुलोमक, कफवातनाशक और अम्ल है ॥ २७ ॥

कफपित्तहरो रुच्यः स्वादुकृद्रातको-
पनः । विपाके दुर्जरः प्रोक्तो राजिका-
परिसाधितः ॥ २८ ॥

राईके द्वारा सिद्ध कीहुई मछली-कफपित्तनाशक,
रुचिकारक, मधुर, वातप्रकोपक और पाकमे दुर्जर
है ॥ २८ ॥

अम्लः समधुरो हृद्यो रोचनश्चाग्निव-
र्द्धनः । वातानुलोमनश्चैव मत्स्यश्चुक्लेण-
साधितः ॥ २९ ॥

चूकेके साथ सिद्ध कीहुई मछली-अम्ल, मधुर,
हृदयको हितकारी, रोचक अग्निवर्धक और वायुको
अनुलोमन करता है ॥ २९ ॥

मधुरो दुर्जरः प्रोक्तो मत्स्यः कूप्माण्ड-
शुण्ठकैः । गुर्वी विपाके मधुरा वटि-
का वा कृता स्मृता ॥ ३० ॥

पेठेके गूदे और सोठके साथ मछलीको सिद्ध करे
पेठेकी बडियों द्वारा सिद्ध हुई ऐसी मछली-मधुर,
दुर्जर भारी और पाकमे मधुर है ॥ ३० ॥

वातश्लेष्महरो हृद्यो बलकृत्पित्तका-
रकः । क्षये क्षीणे मद्यपाने त्रिषु म-
त्स्यः सदा हितः ॥ ३१ ॥

मछली-वातकफनाशक, हृदयको हितकारी, बल-
कारक, पित्तकारी तथा क्षय, क्षीण और मद्यपान
करनेवाले मनुष्योंको सदैव हितकारी है ॥ ३१ ॥

संग्राही दीपनो हृद्यः शूलघ्नो रक्तना-
शनः । वातघ्नो मधुरः प्रोक्तो मत्स्यः
कञ्चटसाधितः ॥ ३२ ॥

कंचटगाकके द्वारा सिद्ध कीहुई मछली-मलरो-
धक, अग्निप्रदीपक, हृदयको हितकारी, शूलनाशक,
रुधिरविकार नाशक, वातनाशक और मधुर है ॥ ३२ ॥

कपायो मधुरो हृद्यः पित्तघ्नो रोचन-
स्तथा । दीपनो वातहा ग्राही हृद्यः
कञ्चटघण्टिकः ॥ ३३ ॥

कचटशाकके द्वारा सिद्ध कीहुई मत्स्यधंटिका-
कपैली, मधुर, हृदयको हितकारी, पित्तनाशक,
रुचिकारक, अग्निप्रदीपक, वातनाशक, मलरोधक
और हृदयको हितकारी है ॥ ३३ ॥

शूलघ्नो दीपनो हृद्यः कफवातामना-
शनः । संग्राही च विशेषेण पाठापत्रेण
साधितः ॥ ३४ ॥

पाठक पत्तोंके द्वारा सिद्ध कीहुई मछली-शूल-
नाशक, अग्निप्रदीपक, हृदयको हितकारी, कफ वात
और आमनाशक, और विशेषकरके मलरोधक है ३४

संग्राही दीपनो हृद्यः कासमर्दकसा-
धितः ।

कसौदीके शाकके द्वारा सिद्ध कीहुई मछली-मल-
रोधक, अग्निप्रदीपक और हृदयको हितकारी है ।

कफपित्तहरो हृद्यो मूलिकाशुण्ठिसा-
धितः ॥ ३५ ॥

सूखी मूलीके द्वारा सिद्ध कीहुई मछली-कफपि-
त्तनाशक और हृदयको हितकारी है ॥ ३५ ॥

इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां मत्स्यव्यञ्जनगु-
णाधिकार समाप्त ॥ ९२ ॥

अथ द्रवद्रव्याधिकार ।

तत्रादौ तौयवर्गः ।

पानीयमव्यक्तरसं सुशीतं तर्पनाश-
नम् । अच्छं लघु च हृद्यञ्च तौयं गुण-
वदुच्यते ॥ १ ॥

साधारण जल-अप्रकट (गुप्त) रसयुक्त, शीतल
और तृपानाशक है और स्वच्छ जल-हलका,
हृदयको हितकारी और अधिक गुणवान् है ॥ १ ॥

नादेयं वातलं रूक्षं दीपनं लघु लेख-
नम् । तदभिष्यन्दि मधुरं सान्द्रं गुरु-
कफावहम् ॥ २ ॥

नदाका जल-वातकारक, रूखा, अग्निप्रदीपक,
हलका, लेखन, अभिष्यन्दि, मधुर, गाढा, भारी
और कफकारी होता है ॥ २ ॥

ताडागं वातलं स्वादु कषायं कटुपा-
कि च । तृष्णाघ्नं दीपनं हृद्यं पित्तघ्नं
मधुरं गुरु ॥ ३ ॥

तालावका जल-वातकारक, स्वादु, कषैला, कटुपा-
की, तृषानाशक, दीपन, हृदयको हितकारी, पित्तना-
शक मधुर और भारी है ॥ ३ ॥

वातश्लेष्महरं वाप्यं सक्षारं कटु पि-
त्तलम् ॥ ४ ॥

वावडीका जल-वातरुफनाशक, खारी, कटु और
पित्तकारक है ॥ ४ ॥

चौण्डचमन्निकरं रूक्षं मधुरं कफपित्त-
कृत ।

चौण्डका जल-अग्निजनक, रूखा, मधुर और
कफपित्तकारक है ।

कफघ्नं दीपनं हृद्यं लघु प्रस्रवणोद्भ-
वम् ॥ ५ ॥

झरनेका जल-कफनाशक, जठराग्निको दीपन करने-
वाला, हृदयको प्रिय और हलका है ॥ ५ ॥

सक्षारं पित्तलं कौपं श्लेष्मघ्नं वह्निदी-
पनम् ।

कुपका जल-खारी, पित्तकारी, कफनाशक और
अग्निप्रदीपक है ।

मधुरं पित्तशमनमविदाह्यौद्धिदं म-
तम् ॥

उद्धिद जल-(पृथ्वीको फोडकर जो बड़े वेगसे
जल बहता है)-मधुर, पित्तनाशक और अविदाही है।

वैकिरं लघु सक्षारं कफघ्नं वह्निदीप-
नम् ॥ ६ ॥

वैकिरजल-(नदीके निकटकी पृथ्वीमें जो गढा
खोदकर जल निकालते हैं उसको वैकिरजल कहते हैं)
हलक, खारी, कफनाशक और अग्निप्रदीपक है ॥ ६ ॥

कैदारं मधुरं प्रोक्तं विपाके गुरु दोषलम् । तद्रत्पात्वलमुद्दिष्टं विशेषादोषलन्तु तत् ॥ ७ ॥

खेतका जल-मधुर, पाकमें भारी और दोषकारक है और इसीके समान तलइयाके जलके गुण जानने । किन्तु यह विवेक करके त्रिदोषकारक है ॥ ७ ॥

सामुद्रमुदकं क्लिष्टं लवणं सर्वदोषकृतम् ।

समुद्रका जल-क्लिष्ट, नमकीन और सम्पूर्ण दोषों को कुपित करता है ।

अनेकदोषमानूपं वार्यभिष्यन्दि गर्हितम् ॥ ८ ॥

अनूपदेशका जल-अनेकदोषयुक्त होनेसे आभिष्यन्दकारक और त्यागने योग्य है ॥ ८ ॥

परिदोषैरसंयुक्तं निरवद्यं तु जाङ्गलम् ।

जांगलप्रदेशका जल-सम्पूर्ण दोष रहित और निर्विकार होता है ।

पाके विदाहिनृष्णाघ्नं प्रशस्तं प्रीतिवर्द्धनम् ॥ ९ ॥ दीपनं स्वादु शीतञ्च तोयं साधारणं लघु ॥ १० ॥

साधारण जल-पाकके समय दाहजनक, तृपानाशक, प्रीतिवर्धक, दीपन, स्वादु, शीतल और हलका होता है ॥ ९ ॥ १० ॥

नद्यः शीघ्रवहा लघ्व्यः प्रोक्ता याश्चामलोदकाः । गुर्व्यः शैवालसञ्चन्नाः कलुषा मन्दगाश्च याः ॥ ११ ॥

शीघ्र वहनेवाली नदियोंका जल-हलका और निर्मल है । सवार आदिसे ढकी हुई और मन्द २ वहने वाली नदियोंका जल-भारी और कलुषित होता है ॥ ११ ॥

प्रायेण नद्यो मरुपु सुतित्तलवणान्विताः । लघ्व्यः समधुराश्चैव पौरुषेयावलेहिताः ॥ १२ ॥

प्रायः मरुदेशकी नदियोंका जल-तित्त और लवण रसयुक्त होता है । पुरुषोंके द्वारा अवलेहित नदियोंका जल-हलका और मधुर होता है ॥ १२ ॥

दिवार्ककिरणैर्जुष्टं जुष्टमिन्दुकरैर्निशि । अरुक्षमनभिष्यन्दि तत्तुल्यङ्गगनावुना ॥ १३ ॥

जिसपर दिनमें सूर्यकी किरणें पडती हों और रात्रिमें चन्द्रमाकी किरणें पडती हों ऐसा जल-रुक्षता रहित, अनभिष्यन्दी और आकाशके जलके समान गुणवाला है ॥ १३ ॥

गगनाम्बु त्रिदोषघ्नं गृहीतं यत्सुभाजने । बल्यं रसायनं नेत्र्यं पात्रापेक्षिततः परम् ॥ १४ ॥

आकाशका जल जो उत्तम पात्रमें ग्रहण किया हो तो वह-त्रिदोष नाशक, बलकारक, रसायन, नेत्रोंको हितकारी और पात्रानुसार विशेष गुणवाला है ॥ १४ ॥

मूर्च्छार्पित्तास्रदाहेषु विषे रक्ते मदात्यये । क्लमभ्रमपरीतिषु तमके वमथौ तथा । ऊर्ध्वगे रक्तपित्ते च शीतमम्भः प्रशस्यते ॥ १५ ॥

शीतलजल-मूर्च्छा, रक्तपित्त, दाह, विष, रुधिरविकार, मदात्यय, क्लम, भ्रम, तमक, वमन और ऊर्ध्वगत रक्तपित्त इन सबमें हितकारी है ॥ १५ ॥

पार्श्वशूले प्रतिश्याये वातरोगे गलग्रहे । आधमाने स्तिमिते कोष्ठे सद्यः शुद्धौ नवज्वरे ॥ हिक्कायां स्नेहपीते च शीताम्बु परिवर्जयेत् ॥ १६ ॥

पार्श्वशूल, प्रतिश्याय, वातरोग, गलग्रह, अफारा और स्तिमितकोष्ठमें तथा वमन, विरेचनादिसे तत्काल शुद्ध होनेपर, नवीन ज्वर, हिचकी और स्नेहपान पर मनुष्यको शीतल जल त्याग देना चाहिये ॥ १६ ॥

कफमेदोऽनिलघ्नञ्च दीपनं बस्तिशोधनम् । कासश्वासज्वरहरं पथ्यमुष्णोदकं निशि ॥ १७ ॥

रात्रिमे पिया हुआ गरम जल-कफ, भेद और वायुको दूर करता है, अग्निप्रदीपक, वस्तिगोधक, खांसी श्वास और ज्वरको दूर करता है तथा पथ्य है ॥ १७ ॥

अरोचके प्रतिश्याये प्रमेहे श्वयथौ क्षये । मन्देऽग्रावुदरे कुष्ठे ज्वरे नेत्रा-मये तथा ॥ व्रणे च मधुमेहे च पानी-यं मन्दमाचरेत् ॥ १८ ॥

अरुचि, प्रतिश्याय, प्रमेह, सूजन, क्षय, मदान्नि, उदररोग, कोठ, ज्वर, नेत्ररोग, व्रण और मधुमेहरोग इन सबमें थोडा थोडा जल पान करे ॥ १८ ॥

चन्द्रकान्तमणिस्पृष्टः शुभ्रैश्चन्द्रांशु-भिर्निशि । यन्मुञ्चेन्निर्मलं वारि-तद्विद्यादमृतोपमम् ॥ १९ ॥

रात्रिमें चन्द्रमाकी स्वच्छ किरणोके स्पर्शसे चन्द्र-कान्तमणिमेसे जो जल निकलता है, वह अमृतके समान है ॥ १९ ॥

स्निग्धं स्वाहुहिमं हृद्यं दीपनं व-स्तिशोधनम् । वृष्यं पित्तपिपासाहनं नारिकेलोदकं गुरु ॥ २० ॥

नारियलका जल—स्निग्ध, मधुर, जीतल, हृदयके हितकारी, दीपन, वस्तिगोधक, वृष्य, पित्त और तृषाना-गक और भारी है ॥ २० ॥

अथ क्षीरवर्गः ।

अल्पाभिष्यन्दि गोक्षीरं गुरु स्निग्धं रसायनम् । रक्तपित्तहरं शीतं मधुरं रसपाकयोः ॥ २१ ॥

गायका दूध—किंचित् अभिष्यन्दि, भारी, स्निग्ध रसायन, रक्तपित्तनागक, शीतल, रस और पाकमें मधुर है ॥ २१ ॥

अल्पाम्बुपानव्यायामकटुतिक्ताशनै-र्लघु । आजं शोषज्वरश्वासरक्तपि-त्तातिसारनुत् ॥ २२ ॥

वकरी अल्पजल पान करती है तथा दिनभर परि-श्रम करती है अर्थात् कूदती फिरती है एवं कटु और

तिक्त रसवाले द्रव्योंको भक्षण करती है, इस कारण वकरीका दूध—हलका, तथा शोष, ज्वर, श्वास रक्तपित्त और अतिसारको दूर करता है ॥ २१ ॥

महिषीणां गुरुतरं गव्याच्छीततरं पयः । स्नेहादूनमनिद्राणामत्यग्नीना-श्च तद्वितम् ॥ २३ ॥

भैसका दूध—गायके दूधकी अपेक्षा अधिकतर भारी और जीतल है । तथा जिनके शरीरमें स्निग्ध-ता नहीं है अर्थात् जिनका शरीर रुक्ष है, जिनको निद्रा नहीं आती और जिनकी अग्नि अत्यन्त दीपन है, उनके लिये भैसका दूध अतीव हितकारी है ॥ २३ ॥

रूक्षोष्णमीषलवणमौष्टं संदीपनं ल-घु । शस्तं वातकफानाहकृमिशो-थोदरार्शसाम् ॥ २४ ॥

ऊटनीका दूध—रूखा, गरम, किंचित् लवणरस-युक्त, अग्निप्रदीपक और हलका है । तथा वात, कफ, आनाह, कृमि, शोथ, उदररोग और अर्शरोग इन सब रोगोंमें हितकारी है ॥ २४ ॥

नारीणां मधुरं क्षीरं कषायानुरसं-हिमम् । नस्याश्च्योतनयोः पथ्यं जीवनं लघु दीपनम् ॥ २५ ॥

स्त्रीका दूध—मधुर, कपैला, जीतल, नस्य और नेत्रोंके आश्च्योतनकर्ममें हितकारी, जीवनदाता हलका और दीपन है ॥ २५ ॥

कषायतिक्तानुरसं कासशोथज्वरा-पहम् । औरभ्रं मधुरं स्निग्धमुष्णं पित्तकफापहम् ॥ २६ ॥

भेडका दूध—कपैला, तिक्त, ख़ांसा, सूजन, और ज्वरनागक, तथा मधुर, स्निग्ध, गरम एवं पित्त और कफको नष्ट करता है ॥ २६ ॥

पयोऽभिष्यन्दि गुर्वामं प्रायशः परि-कीर्तितम् । तदेवोष्णं लघुतरं तद-भिष्यन्दि चाशृतम् ॥ २७ ॥

प्रायः अपक (कच्चा) दूध—अभिष्यन्दि और भारी होता है। वही यदि औटिया जाय तो गरम और

हलका होता है और वही आँटाकर शीतल किया हुआ दूध अभिष्यन्दि है ॥ २७ ॥

वर्जयित्वा स्त्रियाः स्तन्यभामं तद्धि गुणोत्तरम् । धारोष्णं गुणवत्क्षीरं विपरीतमतोऽन्यथा ॥ २८ ॥

किंतु स्त्रियोंका दूध गरम नहीं करना चाहिये, क्योंकि, वह फसा ही गुणकारक होता है । धारोष्ण दूध गुणवान् होता है । और इसके विपरीत गुणवान् नहीं होता ॥ २८ ॥

अनिष्टगन्धमम्लश्च विवर्णं विरसश्च तत् । वर्ध्मं सलवणं क्षीरं यच्च पथ्यु- पितं भवेत् ॥ २९ ॥

जिससे बुरी गन्ध आती हो, जो खट्टा हो, बुरे रंगका, जिसका स्वाद विगड गया हो, तथा जो नम- कति और वासी हो वह दूध त्याग देना चाहिये ॥ २९ ॥

अथ दधिवर्गः ।

स्निग्धं विपाके मधुरं दीपनं बलवर्द्ध- नम् । वातापहं पवित्रश्च गव्यं दधि रुचिप्रदम् ॥ ३० ॥

गायका दही-चिकना, पाकमें मधुर, आम्रिप्रदीपक बलवर्द्धक, वातनाशक, पवित्र और रुचिकारक है ३०

दध्याजं कफवातघ्नं लघु पाके क्षया- पहम् । दुर्नामश्वासकासेषु हितमग्ने- श्च दीपनम् ॥ ३१ ॥

बकरीका दही-कफवातनाशक, पाकमें हलका क्षय- नाशक, बवासीर, श्वास और खाँसीमें अतीव हित- कारी तथा आम्रिको दीपन करता है ॥ ३१ ॥

विपाके मधुरं वृष्यं रक्तपित्तप्रसाद- नम् । बलासवर्द्धनं स्निग्धं विशेषाद- धि माहिषम् ॥ ३२ ॥

भैसका दही-पाकमें मधुर, वृष्य, रक्तपित्तको प्रसन्न करनेवाला, कफकारक और विशेष करके चिकना है ॥ ३२ ॥

विपाके कटुसक्षारमम्लं भेद्यौष्टिकं दधि । वातमर्शासि कुष्ठानि कृमीन् हन्त्युदरणि च ॥ ३३ ॥

ऊँटनीका दही-पाकमें कटु, खारी, खट्टा और भेदक है । तथा वातरोग, बवासीर, कुष्ठ, कृमि और उदररोगोंको नष्ट करता है ॥ ३३ ॥

चक्षुष्यमग्निदोषघ्नं दधि नायर्था गुणो- त्तरम् । लघुपाके बलासघ्नं वीर्योष्णं पंक्तिनाशनम् ॥ ३४ ॥

खीका दही-नेत्रोंको हितकारी, आग्निदोषनाशक, अत्यन्त गुणयुक्त, पाकमें हलका, कफनाशक, उष्ण- वीर्य और परिणामगूलको दूर करता है ॥ ३४ ॥

रसे पाके च मधुरं कषायं वातापि- त्तलुत् । कोपनं कफवातानां दुर्नाम्ना- श्चाविकं दधि ॥ ३५ ॥

भेंडका दही-रस और पाकमें मधुर, कपैला, वातापित्तनाशक, कफ और वातको कुपित करने- वाला तथा बवासीरको बढ़ाता है ॥ ३५ ॥

पीनसे चातिसारे च शीतके विषम- ज्वरे । अरुचौ मूत्रकृच्छ्रे च कार्श्ये च दधि शस्यते ॥ ३६ ॥

पीनसरोग, अतिसार, शीतज्वर, विषमज्वर, अरुचि, मूत्रकृच्छ्र और कृशता इन सब रोगोंमें दही अतीव हितकारी है ॥ ३६ ॥

शरद्रीष्मवसन्तेषु प्रायशो दधि ग- हिनम् । हेमन्ते शिशिरे चैव वर्षा- सु दधि शस्यते ॥ ३७ ॥

शरद, शीष्म और वसन्तऋतुमें प्रायः दही त्याग्य है । हेमन्त, शिशिर और वर्षाऋतुमें दही हितकारी होता है ॥ ३७ ॥

वातघ्नं कफकृतं स्निग्धं बृंहणं वात- पित्तकृतं । कुर्व्याद्भक्ताभिलाषश्च द- धि यत्सुपरिस्तुतम् ॥ ३८ ॥

अच्छे प्रकारसे छाना हुआ दही-वातनाशक, कफकारक, स्निग्ध, पुष्टिकारक, वातपित्तजनक और भोजनमें रुचिको उत्पन्न करता है ॥ ३८ ॥

शृतक्षीरात्तु यज्जातं गुणवद्वाधि तत्
स्मृतम् । वातपित्तहरं वृष्यं धात्व-
शिवलवर्द्धनम् ॥ ३९ ॥

दूधको औटाकर जो दही जमाया जाता है वह अधिक गुणवाला जानना । वह वातपित्तनाशक, वृष्य, एवं धातु, अग्नि और बलको बढ़ाता है ॥ ३९ ॥

दध्नः सरो गुरुवृष्यो विज्ञेयोऽनिल-
नाशनः । वहेर्विवर्द्धनश्चापि कफशु-
क्रविवर्द्धनः ॥ ४० ॥

दहीकी मलाई-भारी, वृष्य, वातनाशक, अग्नि-वर्धक तथा कफ और शुक्रको बढ़ाती है ॥ ४० ॥

दाधि सारं च रूक्षन्तु ग्राहि विष्टम्भि
वातलम् । दीपनीयं लघुतरं सकषा-
यं रुचिप्रदम् ॥ ४१ ॥

दहीका सार-रूक्ष, मलरोधक, विष्टम्भकारक, वातजनक, अग्निप्रदीपक, हलका, कपैला और रुचिकारक है ॥ ४१ ॥

तृष्णाक्लमहरं मस्तु लघु स्रोतोवि-
शोधनम् ॥ ४२ ॥

दहीका तोड़-तृषा और क्लमनाशक, हलका, और स्रोतोंको शुद्ध करता है ॥ ४२ ॥

अथ तक्रवर्ग ।

ग्रहणीदोषशोफाशौ ग्रहातीसार-
गुल्मनुत् । त्रिदोषशमनं तक्रमुद्धृ-
तस्नेहमादिशेत् ॥ ४३ ॥

जिसमेंसे घृत निकाल लिया गया हो ऐसा तक्र-संग्रहणी, सूजन, बवासीर, ग्रह, अतिसार, गुल्म और त्रिदोषको शमन करता है ॥ ४३ ॥

शीतकालेऽग्निमान्ये च कफौत्थेष्वा-
मयेषु च । मार्गावरोधे दुष्टे च वायौ
तक्रं प्रशस्यते ॥ ४४ ॥

शीतकाल, संदासि, कफजनितरोग, स्रोतोंके रुकनेमें और वायुकी दुष्टतामें तक्र अतीव हितकारी है ॥ ४४ ॥

वातेऽम्लं सैन्धवोपेतं पित्ते स्वादु सश-
र्करम् । पिबेत्तक्रं कफे वापि व्योषक्षा-
रसमायुतम् ॥ ४५ ॥

वातजनितरोगोंमें-खट्टे तक्रको सैन्धनमकके साथ, पित्तके रोगोंमें मधुर तक्रको मिश्रकिसाथ और कफके रोगोंमें तक्र को त्रिकुटेके चूर्ण और जवाखारके साथ सेवन करे ॥ ४५ ॥

न तु तक्रं क्षते दद्यान्नोष्णकाले न दु-
र्बले । न मूर्च्छाभ्रमदाहेषु न रोगे र-
क्तपैत्तिके ॥ ४६ ॥

क्षत, उष्णकाल, दुर्बलमनुष्य, मूर्च्छा, भ्रम, दाह और रक्तपित्तरोग इन सबमें तक्र सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ४६ ॥

ग्राहिणी वातला रूक्षा दुर्जरा तक्र-
कूर्चिका । गुरुः किलाटोऽनिलहा
पुंस्त्वनिद्राबलप्रदः ॥ ४७ ॥

तक्रकूर्चिका-मलरोधक, वातकारक, रूक्षा और दुर्जरा है । किलाट (मावा, खोवा अथवा फटे हुये दूधका पिंड)-भारी, वातनाशक, तथा पुरुषता, निद्रा और बलको बढ़ानेवाला है ॥ ४७ ॥

मधुरौ बृहणौ वृष्यौ तद्वत्पीथूपमोर-
टौ ॥ ४८ ॥

पीथूप और मोरट-ये दोनों समान गुणवाले, मधुर, बृहण और वृष्य है ॥ ४८ ॥

अथ नवनीत और घृतवर्ग ।

नवनीतं नवं ग्राहि हृद्यं रोचनदीप-
नम् । क्षयारुच्यर्दितप्लीहाग्रहण्यशौ
विकारनुत् ॥ ४९ ॥

नवीन नवनीत (नैनी घी) मलरोधक, हृदयको हितकारी, रुचिकारक, अग्निप्रदीपक तथा क्षय अरुचि अर्दित, प्लीहा, संग्रहणी और बवासीरको नष्ट करता है ॥ ४९ ॥

क्षीरोद्भवं हिमं ग्राहि रक्तपित्ताक्षि-
रोगनुत् । स्मृतिबुद्धयन्निशुक्रौजः क-
फमेदो विशोधनम् ॥ ५० ॥

तत्काल दूधभरो निकाला हुआ मक्खन-शीतल,
मलरोधक, रक्तपित्त और नेत्ररोगनाशक तथा स्मर-
णशक्ति, बुद्धि, अग्नि शुक्र और ओजको बढ़ाता है ।
कफ और मेदको शुद्ध करता है ॥ ५० ॥

विपाके मधुरं सर्पिर्वातपित्तविकार-
नुत् । गव्यं मेध्यश्च चक्षुष्यं तत्संस्का-
रात्रिदोषनुत् ॥ ५१ ॥

घृत-पाकमें मधुर और वातपित्तके विकारोको
नाश करता है । गायका घृत-मेधाजनक, नेत्रोंको
हितकारी और संस्कार होनेसे त्रिदोषको नष्ट करता
है ॥ ५१ ॥

अपस्मारगरोन्मादमूर्च्छाघ्नमनवं घृ-
तम् । अजावीनान्तु सर्पाषि विद्यात्
स्वक्षीरवद्गुणैः ॥ ५२ ॥

पुराना घृत-अपस्मार, विष, उन्माद और मूर्च्छाको
दूर करता है । बरूरी और भेड़के घृतके गुण उनके
दूधके अनुसार जानने ॥ ५२ ॥

अथ तैलवर्ग ।

छिन्नभिन्नच्युतोत्पिष्टमथितक्षतपिच्चि-
ते । भग्नस्फुटितविद्धाग्निदग्धविशि-
ष्टदारिते ॥ ५३ ॥ तथाभिहतनिर्भु-
न्नमृगव्याघ्रादिभिः क्षते । सैकाभ्य-
ङ्गावगाहेषु तिलतैलं प्रशस्यते ॥ ५४ ॥

तिलका तेल-शरीरके किसी अङ्गके कटजाने,
टूट जाने या मनुष्यके गिर जाने, पिसजाने, मसल-
जाने अथवा शरीरमें घाव हो जाने या पिच जाने,
टूट जाने, फट जाने, विष जाने, आगसे जल जाने,
किसी हड्डी आदिके स्थानसे हटजाने और चिरजाने
पर तथा चोट लगने अङ्गके टेढा होजाने अथवा मृग
और व्याघ्रादिके काटनेसे घायल हो जानेपर तथा
सेचन, अभ्यंग और अवगाहन इन सब क्रियाओंमें
तिलका तेल अर्थात् हितकारी है ॥ ५३ ॥ ५४ ॥

तद्द्रव्यस्तिपु पाने च नस्ये कर्णाक्षि-
पूरणे । अनुपानविधौ चापि प्रयोज्यं
वातशान्तये ॥ ५५ ॥

तिलके तेलको वस्तिकर्म, पान, नस्य, कान, और
नेत्रोंके भरनेमें तथा वातको शान्त करनेके लिये
अनुपानविधि में भी प्रयोग करना चाहिये ॥ ५५ ॥

कृमिघ्नं सार्षपं तैलं कण्डूकुष्ठापहं ल-
घु । कफमेदोऽनिलहरं लेखनं कटु
दीपनम् ॥ ५६ ॥

सरसोका तेल-कृमिनाशक, खुजली और कोढ़को
दूर करनेवाला, हलका तथा कफ, मेद और वातको
हरनेवाला, लेखन, कटु और अग्निको दीपन करने-
वाला है ॥ ५६ ॥

विपाके कटुकं तैलं कौसुम्भं सर्वदो-
षकृत् । क्षौमं तैलमचक्षुष्यं पित्तकृ-
द्धातनाशनम् ॥ ५७ ॥

कसूमका तेल-पाकम कटु और सम्पूर्ण दोषोंको
कुपित करता है । अलसीका तेल-नेत्रोंको अहितका-
री, पित्तकारक और वातनाशक है ॥ ५७ ॥

फलोद्भवानि तैलानि यान्यनुक्तानि
तानि च । गुणात्कर्म च विज्ञाय
फलैस्तान्यपि निर्दिशेत् ॥ ५८ ॥

जो तेल नहीं कहे गये हैं उन फलोंके तैलोंके
गुण उन फलोंके गुण और कर्मोंके अनुसार जानने
चाहिए ॥ ५८ ॥

यावन्तः स्थावराः स्नेहाः समासात्प-
रिकीर्तिताः । सर्वे तैलगुणा ज्ञेयाः
सर्वे चानिलनाशनाः ॥ ५९ ॥

जितने स्थावर स्नेह संक्षेपसे कहे गये हैं, उनमें
उन्हींके समान गुण हाते हैं जिनसे कि वे उत्पन्न
होते हैं और वे समस्त वातरोगोंको दूर करते हैं ॥ ५९ ॥

अथ मधुवर्ग ।

त्रिदोषघ्नं मधु प्रोक्तं मेध्यं शंसन्ति वा-
तलम् । हिक्काश्वासकृमिच्छर्दिमेहतृ-
ष्णाविषापहम् ॥ ६० ॥

मधु (शहद)-त्रिदोषनाशक, मेधाजनक, वातका-
रक तथा हिचकी, श्वास, कृमि, वमन, प्रमेह, तृष्णा
और विषको दूर करता है ॥ ६० ॥

भेदःस्थौल्यापहं ग्राहि पुराणमति-
लेखनम् । दोषत्रयहरं पक्वमामम-
म्लश्च दोषलम् ॥ ६१ ॥

पुराणा शहद-भेद और स्थूलतानाशक, मलरो-
धक और अत्यन्त लेखन है । पक्व शहद-त्रिदोषना-
शक और अपक्व (नहीं पका हुआ) शहद-अम्ल
और दोषजनक है ॥ ६१ ॥

अथेक्षुवर्ग ।

इक्षुवो रक्तपित्तघ्ना बल्या वृष्याः क-
फप्रदाः । स्वादुपाकरसाः स्निग्धा
गुरवो मूत्रला हिमाः ॥ ६२ ॥

ईख-रक्तपित्तनाशक, बलकारक, वृष्य, रुफजनक,
पाक और रसमें मधुर, स्निग्ध, भारी, मूत्रजनक
और शीतल है ॥ ६२ ॥

अविदाही कफकरो वातपित्तनिव-
हणः । वक्रप्रह्लादनो हृद्यो दन्तनि-
ष्पीडितो रसः ॥ ६३ ॥

धीतोसे चूसकर पिया हुआ ईखका रस-दाह-
रहित, कफकारी, वातपित्तनाशक, मुखको प्रसन्न
करनेवाला और हृदयको हितकारी है ॥ ६३ ॥

गुरुर्विदाही विष्टम्भी यान्त्रिकस्तु-
प्रकीर्तितः ॥ ६४ ॥

कोल्हूमें पेला हुआ ईखका रस-भारी, दाहजनक
और विष्टम्भकारक है ॥ ६४ ॥

मूलाग्रजन्तुजग्धादिपीडनाम्लसं-
करात् । किञ्चित्कालविधृत्या च
विकृतिं याति यान्त्रिकः ॥ ६५ ॥

ईखकी जड़ और उसका अग्रभाग कृमि आदि
के द्वारा भक्षण किया हुआ होनेसे और पेलते समय
मैलके मिश्रित होजानेसे कोल्हू में पेला हुआ ईखका
रस थोड़ी देर तक रक्खा रहनेसे ही विकारको
प्राप्त हो जाता है ॥ ६५ ॥

फाणितं गुर्वभिष्यन्दि बलकृन्मूत्र-
शोधनम् । नातिश्लेष्मकरः स्निग्धः
सृष्टमूत्रशकृद्गुडः ॥ ६६ ॥

फाणित (राव) भारी, अभिष्यन्दि, बलकारक,
मूत्रशोधक है और गुड अत्यन्त कफकारक नहीं,
स्निग्ध, मूत्र और मलका भेदी है ॥ ६६ ॥

पित्तघ्नो मधुरः स्निग्धो वातहासृक्-
प्रसादनः । स पुराणोऽधिकगुणो गुडः
पथ्यतमो, मतः ॥ ६७ ॥

वही गुड-पित्तनाशक, मधुर, स्निग्ध, वातनाशक
और गंधिको प्रसन्न करता है । पुराणा गुड-अधिक
गुणवाला और अत्यन्त पथ्य है ॥ ६७ ॥

खण्डं वृष्यं सरं स्निग्धं स्वाद्वसृक् पि-
त्तवातजित ।

खण्ड-वृष्य, सारक, स्निग्ध, मधुर, रक्तपित्त और
वातको दूर करती है ।

वातपित्तप्रशमनी रक्तपित्तहरी सिता ।

मिथी-वातपित्तनाशक और रक्तपित्तको दूर
करती है ।

छर्द्यतीसारहृत्प्रोक्ता हूलादिनी मधुश-
र्करा ॥ ६८ ॥

शहदकी खण्ड-व्रमन और अतिसार इनको दूर
करती है और मनमें प्रसन्नताको उत्पन्न करती है ॥ ६८ ॥

अथ मद्यवर्ग ।

सर्वम्पित्तकरं मद्यमम्लं रोचनदीपन-
म् । भेदनं कफवातघ्नं हृद्यं वास्तिवि-
शोधनम् ॥ ६९ ॥

प्रायः सत्र प्रकारकी मदिरा पित्तकारक, अम्ल,
रुचिकारक, दीपन, भेदक, कफनाशक, हृदयको
हितकारी और वास्तिको शुद्ध करती है ॥ ६९ ॥

काश्यांशौ ग्रहणीरोगमूत्राघातानि-
लापहा । स्तन्यरक्तक्षयहिता सुरा
दीपनबृंहणी ॥ ७० ॥

सुरा-शुशता, बवासीर, संग्रहणीरोग, मूत्राघात,
और वातनाशक है । तथा स्त्रियोंके स्तन्यजनितरोग
और जिन मनुष्योंका रुधिर क्षय हो गया है उनको
अत्यन्त हितकारी है । तथा दीपन और पुष्टिकारक
है ॥ ७० ॥

रक्तपित्तकरास्तीक्ष्णाः शुक्तसौवीर-
जातयः । पित्तदाहदो बाह्ये स्थि-
ताः शीतकराः स्मृताः ॥ ७१ ॥

शुक्त (जिफी) और सौवीर (कांजी) आदि
अनेक प्रकारके संघान रक्तपित्तकारक और तीक्ष्ण
हैं। उनको शरीरके ऊपर लेप करनेसे वे पित्त और
दाहको दूर करते हैं तथा शीतलताको उत्पन्न करते
हैं ॥ ७१ ॥

अथ मूत्रवर्ग ।

गोमूत्रं कटु तीक्ष्णोष्णं सक्षारत्वान्न
वातलम् । लघ्वग्निदीपनं मेध्यं पित्तलं
कफवातजित् ॥ ७२ ॥

गोमूत्र-कटु, तीक्ष्ण, गरम और क्षारयुक्त होनेसे
वातकारक नहीं है । तथा हल्का, आग्निको दीपन
करनेवाला, मेधाजनक, पित्तकारक और कफवातको
दूर करता है ॥ ७२ ॥

शूलगुल्मोदरानाहविरेकास्थापनादि-
षु । मूत्रप्रयोगसाध्येषु गव्यं मूत्रं प्रयो-
जयेत् ॥ ७३ ॥

शूल, गुल्म, उदररोग, आनाह, विरेचन और
आस्थापनादि कर्मोंमें तथा जो रोग मूत्रके द्वारा ही
सिद्ध होते हैं उन सबमें गायका मूत्र प्रयोग करना
चाहिये ॥ ७३ ॥

हृत्सासोदरगुल्मेषु कुष्ठमेहविशुद्धिषु ।
आनाहशोथाष्ठीलासु पांडुरोगेषु मा-
हिषम् ॥ ७४ ॥

हृत्सास (उबकाई) उदररोग, गुल्म, कुष्ठ, प्रमेह
और शरीरके अशुद्ध होनेपर तथा आनाह, शोथ,
अष्ठीला और पांडुरोग इन सबमें भैसका मूत्र हितका-
री है ॥ ७४ ॥

कासश्वासापहं शोथकामलापांडुरो-
गनुत् । कटुतिक्तान्वितं छागमीषन्म-
रुतकोपनम् ॥ ७५ ॥

वकरीका मूत्र-खाँसी, श्वास, सूजन, कामला और
पांडुरोगको दूर करता है । तथा कटु, तिक्त और कि-
चिन् वातको कुपित करता है ॥ ७५ ॥

प्लीहोदरहरं श्वासशोथवच्चौग्रहे हि-
तम् । सक्षारतिक्तकटुकमुष्णं वातघ्न-
माधिकम् ॥ ७६ ॥

भेडका मूत्र-प्लीहा, उदररोग, श्वास, सूजन
और मलकी बद्धता इन सबमें हितकारी है । तथा
क्षार, तिक्त, कटु, गरम और वातनाशक है ॥ ७६ ॥

दीपनं कटु तीक्ष्णोष्णं वातरेतोविका-
रनुत् । आश्वं कफहरं रूक्षं कृमिदह-
विनाशनम् ॥ ७७ ॥

घोडेका मूत्र-दीपन, कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, वात
और वीर्यके विकारोंको दूर करता है । तथा कफ-
नाशक, रूक्ष, कृमि और दहूको दूर करता है ॥ ७७ ॥

सतिक्तलवणं भेदि वातघ्नं पित्तको-
पनम् । तीक्ष्णं क्षारे किलासे च ना-
गमूत्रं प्रयोजयेत् ॥ ७८ ॥

हाथीका मूत्र-तिक्त, नमकीन, भेदक, वातना-
शक, पित्तप्रकोपक, तीक्ष्ण, तथा क्षार और किला-
स रोगमें हितकारी है ॥ ७८ ॥

गररेतो विकारघ्नं तीक्ष्णं जठररोग-
नुत् । दीपनं गार्दभं मूत्रं कृमिवात-
कफापहम् ॥ ७९ ॥

गर्भीका मूत्र-विष और वीर्यके विकारोंको दूर
करता है । तीक्ष्ण, उदररोगनाशक, दीपन तथा
कृमि, वात और कफके विकारोंको दूर करता है ॥ ७९ ॥

शोथकुष्ठोदरोन्मादमारुतकृमिना-
शनम् । अशौघं कारभं मूत्रं मानु-
षन्तु विषापहम् ॥ ८० ॥

ऊटका मूत्र-सूजन, कुष्ठ, उदररोग, उन्माद,
वात, कृमि और ववासीरको दूर करता है । तथा
मनुष्यका मूत्र विषनाशक है ॥ ८० ॥

इति श्रीवंगसेने भाषाटीकायां द्रवद्रव्याधिकार
समाप्त ॥ ९३ ॥

अथारिष्टाधिकार ।



फलाग्निजलवृष्टीनां पुष्पधूमाम्बुदा
यथा । ख्यापयन्ति भविष्यत्वं तथा-
रिष्टानि पञ्चताम् ॥ १ ॥

जिसप्रकार वृक्षपर फूल आनेसे फल आनेकी संभावना होती है, जिस प्रकार धुएँके होनेसे अग्निकी संभावना होती है और जिसप्रकार मेघोंके होनेसे वृष्टि होनेकी सम्भावना होती है, उसी प्रकार अरिष्टके लक्षणोंके होनेसे मृत्युकी संभावना होती है ॥ १ ॥

तानि सौक्ष्म्यात्प्रमादाद्वा तथैवाशु-
व्यनिक्रमात् । अज्ञानाच्च न गृह्यन्ते
मुमूर्षोर्न त्वसम्भवात् ॥ २ ॥

ये अरिष्टके लक्षण अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे तथा प्रमादसे एवं बहुत शीघ्र २ एक लक्षणके पश्चात् दूसरा लक्षण होनेसे उनका रोगीको ठीक २ ज्ञान नहीं होता, परन्तु मृत्युके पूर्व ये अरिष्टके लक्षण होते अवश्य है ॥ २ ॥

नत्वारिष्टस्य जातस्य नाशोऽस्ति
मरणादृते । मरणश्चापि तत्रास्ति य-
त्रारिष्टं पुरःसरम् ॥ ३ ॥

अरिष्टके होनेसे मृत्यु अवश्य होती है, वह मृत्यु नहीं जिसमे प्रथम अरिष्टके लक्षण नहीं होते, और वह अरिष्ट नहीं कि जिसके होनेसे मृत्यु न हो ॥ ३ ॥

ध्रुवं त्वरिष्टे मरणं ब्राह्मणैस्तत्कला-
ऽमलैः । रसायनपरैर्जाप्यं तत्परैर्वा
निवार्यते ॥ ४ ॥

जब यह बात निश्चय हो जाय कि अरिष्टके लक्षण है और इनके होनेसे मृत्यु अवश्य होगी तब रसायनको जाननेवालोंमें श्रेष्ठ पवित्र तपस्वी और जितेन्द्रिय ब्राह्मणोंके द्वारा जप कराकर उस अरिष्टको दूर करे ॥ ४ ॥

असिद्धिं प्राप्नुयाल्लोके प्रतिकुर्वन्ग-
तायुषः । तस्माद्यत्नैररिष्टानि लक्षये-
त् कुशलो भिषक् ॥ ५ ॥

गतायुष मनुष्यकी चिकित्सा करनेमें वैद्यको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, इस कारण कुशल वैद्य अच्छे-प्रकारसे यत्नपूर्वक अरिष्टके लक्षणोंको जानकर चिकित्सा करे ॥ ५ ॥

वैद्योऽरिष्टानि सिद्धयर्थं भविष्यं मरणं
स्फुटम् । कथयन्त्यातुरगतं शुभश्चा-
शुभमेव च ॥ ६ ॥

अरिष्टकी सिद्धिके लिये मृत्यु अवश्य होती है । इस कारण वैद्य रोगीके शुभ और अशुभ अरिष्टके लक्षणोंको अवश्य कह देवे ॥ ६ ॥

नक्षत्रोद्भवपीडा च यथाकालं विपच्य-
ते । अरिष्टपाकन्तु तथा द्रुवंते बहवो
जनाः ॥ ७ ॥

जिस प्रकार नक्षत्रजनितपीडा यथा समयमें प्राप्त होनेपर फल देती है, उसी प्रकार अरिष्टके होनेपर मृत्यु होती है ऐसा बहुतसे मनुष्य कहते हैं ॥ ७ ॥

अथ दूतलक्षण ।

दूतस्य गच्छतो वैद्यमानेतुं रोगिणः
कृते । प्रदीप्तं शोभनं प्राक्तं सौम्यं न
शकुनं शुभम् ॥ ८ ॥

जो रोगीके लिये वैद्यके बुलानेको मनुष्य जाता है, उसको दूत कहते हैं । उसको जाते हुए मार्गमें प्रदीप्त (प्रस्वलित) अग्नि आदि शकुन हो तो शुभ और सौम्य शकुन हों तो अशुभ होते हैं ॥ ८ ॥

उत्तमस्यापि नीचोऽपि नीचस्याप्यु-
त्तमो जनः । नरो विकृतवेषश्च न दूतः
शुभसूचकः ॥ ९ ॥

उत्तम जातिके रोगीके लिये नीच जातिका दूत और नीच जातिके रोगीके लिये उत्तम जातिका दूत तथा विकृत वेषवाला मनुष्य दूत अशुभसूचक होता है ॥ ९ ॥

पाखण्डाश्रमवर्णानां स्वर्णाः कर्म-
सिद्धये । त एव विपरीताः स्युर्दूताः
कर्मविपत्तये ॥ १० ॥

पाखंडी—(भिक्षामाँगनेवाले—जिनके हाथमें कपाल अथवा लोहनिर्मित अन्यान्य पात्र हो), आश्रमी—(ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वाणप्रस्थ, संन्यासी) और वर्ण—(ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) इन सब प्रकारके रोगियोंके लिये इन्हीं २ जातियोंके दूत होने चाहिये । अर्थात् पाखंडीके लिये पाखंडी, ब्रह्मचारीके लिये ब्रह्मचारी और ब्राह्मण, क्षत्रियादिके लिये ब्राह्मण क्षत्रियादि जातिका दूत ठीक होता है । और इसके विपरीत अर्थात् गृहस्थके लिये ब्रह्मचारी, अथवा पाखंडी ब्राह्मणके लिए क्षत्रिय और क्षत्रियके लिये ब्राह्मणजातिका दूत शुभ नहीं होता । अर्थात् यह कार्यमें विपत्ति करते हैं ॥ १० ॥

नपुंसकः स्त्रीबहवोऽनेककार्य्याभि-
सूचकाः । पाशदण्डायुधधराः पाण्डुरे-
तरवाससः ॥ ११ ॥ आर्द्रजीर्णापस-
व्यैकमलिनोद्धतवाससः । रूक्षनिष्ठु-
रवत्तारस्त्वमङ्गल्याभिधायिनः ॥ १२ ॥

नपुंसक, जिसके बहुत स्त्रियें हों, जो अनेक प्रकारके अन्यान्य कार्योंकी चिंता करता हो तथा जो पाश (फाँसी जाल इत्यादि), दंड (लठिया आदि) और अनेक प्रकारके अस्त्रोंको हाथमें धारण किये हो तथा लाल और काले वस्त्र पहरे हो एवं गीले और पुराने कपडे पहरे हो या जो बाँये कंधेपर एक मलिन वस्त्र धारण किये हो, रूखे और कठोर वचन बोलनेवाला तथा अमंगलजनक वचन बोलनेवाला हो ऐसे दूत वैद्यको बुलानेके लिये श्रेष्ठ नहीं होते ॥ ११ ॥ १२ ॥

न्यूनाधिकाङ्गा उद्विग्ना विकला रौद्र-
रूपिणः । छिन्दन्तस्तृणकाष्ठानि
स्पृशन्तो नासिकास्तनम् ॥ १३ ॥
वस्त्रान्तानामिकाकेशनखरोमदशा-
स्पृशः । वैद्यं य उपसर्पन्ति दूतास्ते
चापि गर्हिताः ॥ १४ ॥ कपालोप-
लभस्मास्थितुषाङ्गारकराश्च ये । वि-
लिखन्तो महीं केचिन्मुञ्चन्तो लोष्ठ-
भेदिनः ॥ १५ ॥ तैलकर्मदिग्धाङ्गा
रक्तस्रगनुलेपनाः । फलं पक्वमसारं
वा गृहीत्वान्यच्च तद्विधम् ॥ १६ ॥
नखैर्नखान्तरं वापि करेण चरणौ त-
था । काष्ठोषानञ्चर्महस्ता विकृता

व्याधिपीडिताः ॥ १७ ॥ वामाचा-
रा रुदन्तो वा श्वासिनो विकृतेक्ष-
णाः । याम्यां दिशि प्राञ्जलयो विष-
भैकपदस्थिताः ॥ १८ ॥ दैन्याम-
ङ्गल्यचिह्नानि दधतश्चापराण्यपि ।
दक्षिणाभिमुखं देशे मलिने क्रूरक-
र्मणि ॥ १९ ॥ ज्वालयन्तं पठन्तं
वा क्षुरकर्मणि चोद्यतम् । भूमौ
शयानं नम्रं वा वेगोत्सर्गेषु वा शु-
चिम् ॥ २० ॥ प्रकीर्णकेशमध्यक्त
क्लिन्नं क्लान्तमथापि वा । वैद्यं य उप-
सर्पन्ति दूतास्ते चापि गर्हिताः ॥ २१ ॥

न्यूनअंगवाला—(अंगहीन, लूला, लँगडा इत्यादि), अधिकअंगवाला, (छंगा इत्यादि), उद्विग्नचित्तवाला, विकल और भयंकर चेष्टावाला तथा जो तृणको और काष्ठको तोड़ता हो, नासिका और स्तनोंको छू-ता हो, एवं वस्त्रोंके कोने, अनामिका अंगुली, केश, नख, रोम और वस्त्रोंके मध्यभाग इनको बारबार स्पर्श करता हो ऐसी चेष्टायुक्त जो दूत वैद्यको बुलाने के लिये जाते हैं, वे शुभ नहीं होते हैं । जो हाथमें कपाल (खोपडी), पत्थर, भस्म, हड्डी, भुस और अँगारे इनको धारण किये हो, नाखूनोंसे पृथ्वीको लिखें अथवा हाथमेंसे कुछ गिरावे या नाखूनोंसे मि-ट्टीको तोड़े तथा जिसके शरीरपर तेल और कीचड लिपट रही हो अथवा लालचन्दन वा अन्यान्य लाल रंगके अनुलेपनोंको धारण किये हो या लाल फूलोकी मालाको धारण कियेहो अथवा सार रहित पके फलोंको धारण किये हो तथा अन्यान्य इसी प्रकारकी और अशुभ वस्तुको धारण कियेहो तथा न खोंसे नाखूनोंको अथवा हाथोंसे पांजोंको स्पर्श कर-ताहो, काष्ठ, उपानह (जूता) और चर्म इनको हाथ में धारण कियेहो, विकृत और अनेक रोगोंसे पीडित हो अथवा जो उलटे आचरण करता हो, रोता हो, जो बड़े बड़े श्वासोंको छोड़ता हो, जो विकृत नेत्रोंसे देखता हो और जो दक्षिण दिशामें एक पैरसे हाथ जोड़कर विपम आसनसे बैठा हो, अथवा दीनताजनक और अमंगलकारक ऐसे अन्यान्य पदार्थोंको हाथमें धारण किये हो, दक्षिणकी ओरको

मुख करके बैठा हुआ अथवा मलिन स्थानमें बैठा हुआ, क्रूर कर्ममें तत्पर अथवा अग्निको जलाता हुआ, पढता हुआ, नख या वालोको काटता हुआ भूमिमें शयन करता हुआ, नम्र, मठ, मूत्र इत्यादिको को त्यागता हुआ, शौचाचार करता हुआ और खुले हुए वालोवाला मालिस किये हो, छेदित शरीरवाला-और भ्रान्तियुक्त चित्तवाला इन चेष्टाओंसे युक्त जो दूत वैद्यको बुलानेके लिये जाता है वह शुभ नहीं होता ॥ १३-२१ ॥

पिन्धे चाहुतिकार्ये वा तथा चोत्पा-
तदर्शने । मध्याह्ने चार्द्धरात्रे च स-
न्ध्ययोः कृत्तिकास्तु च ॥ २२ ॥ आ-
र्द्राश्लेषामघामूलपूर्वास्तु भरणीषु च ।
चतुर्थ्याश्च नवम्याश्च षष्ठ्यां सन्धि-
दिनेषु च ॥ वैद्यं य उपसर्पन्ति दूता-
स्ते चापि गर्हिताः ॥ २३ ॥

जिस दिन वैद्यके घर श्राद्ध हो अथवा आहुतिक-
र्म (यज्ञादिक) हो तथा जिस दिन कोई उत्पात हो
एवं मध्याह्नके समय, अर्द्धरात्रिके समय, दोनों सं-
ध्याओमें तथा कृत्तिका, आर्द्रा, आश्लेषा, मघा, मूल,
पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रपदा और भरणी
इन नक्षत्रोंमें तथा चौथ, नवमी, छठ और सन्धिके
दिन इनमें जो दूत वैद्यको बुलानेके लिये जाते हैं वे
भी शुभ नहीं होते ॥ २२ ॥ २३ ॥

स्विन्नाभितता मध्याह्ने ज्वलनस्य स-
भीपतः । गर्हिताः पित्तरोगेषु दूता
वैद्यमुपागताः ॥ २४ ॥

जिसका शरीर पसीनेसे व्याप्त अथवा धूपसे सं-
तप्त हो, मध्याह्नके समय और अग्निके निकटसे
अथवा पित्तरोगके होनेपर जो दूत वैद्यको बुलानेके
लिये जाते हैं वे शुभ नहीं होते ॥ २४ ॥

ते वातकफरोगेषु कर्मसिद्धिकरा
मताः । रक्तापित्तातिसारेषु प्रमेहेषु
विशेषतः ॥ प्रशरतो जलयोगेषु
दूतवैद्यसमागमः ॥ २५ ॥

और इन्हीं लक्षणोंसे युक्त जो दूत वात और
कफके रोगोंके होनेपर वैद्यके पारा जाय तो कार्यको
सिद्ध करनेवाला जानना । तथा रक्तपित्त, अतिसार

और विशेष करके प्रमेह इन रोगोंसे ग्रसित होनेपर
दूतका और वैद्यका समागम जलके स्थानोंमें होना
सिद्धिदायक है ॥ २५ ॥

शुभदूतके लक्षण ।

शुक्लवासी गौरशुचिः श्यामा वा प्रि-
यदर्शनाः । स्वस्थां जातौ स्वगोत्रे
वा दूताः कार्यकराः स्मृताः ॥ २६ ॥

सफेद वस्त्रोंको धारण किये हुये, गौरवर्ण, अथवा
श्यामवर्णवाला, शुद्ध, प्रियदर्शन अपनी जातिका
और अपने गोत्रका ऐसे दूत कार्यको सिद्ध करने-
वाले जानने ॥ २६ ॥

अव्यङ्गाः पटवो दूताः शुभ्रलेपांबर-
स्रजः । वृषवाजिसमारूढाश्चारूचे-
ष्टाः तुजातयः ॥ २७ ॥ भिषजः
समये प्राप्ताः सजीवदिशामाश्रिताः ।
ऊनसंख्याः प्रशस्ताः स्यू रोगिणः
सुखहेतवः ॥ २८ ॥

सम्पूर्ण अंगयुक्त, चतुर, सफेद प्रलेप, सफेद
वस्त्रों और सफेद मालादिके धारण करनेवाले तथा
केशर मालाआदि पदार्थोंको धारण करनेवाला, वैल
घोडे आदिपर चढे हुए उत्तम चेष्टावाले और
अपनी जातिके, वैद्यके मिलनेके समय प्राप्त हुए,
सजीव दिशामे स्थित हुआ अर्थात् जो स्वर चलता
हो उसी ओर खडा हो और आयुमें थोड़ी संख्यावाले
ऐसे दूत रोगीको सुख देनेवाले जानने ॥ २७ ॥ २८ ॥

यस्यां प्राणानिलो वाति सा नाडी
जीवसंयुता । दिग्विभागोऽपि तस्या
यः सजीवः स निगद्यते ॥ २९ ॥
स्वस्थं प्राङ्मुखमासीनं समे देशे
शुचौ शुचिम् । उपसर्पन्ति ये वैद्यं ते
च कार्यकराः स्मृताः ॥ ३० ॥

जिस दिशामें दूतकी प्राण वायु बहती है, वह
नाडी जीवयुक्त होती है । उसकी दिशाके जो विभाग
है, उसको सजीव दिशा कहते हैं । उसी दिशामे वैद्यको
दूत मिले तो रोगीको सुख होता है । स्वस्थाचित्त
पूर्वको मुख करके समान और शुद्धस्थानमें पवित्र
होकर बैठे हुए वैद्यको जो दूत बुलाने जाते हैं, वे
दूत कार्यसिद्धि करनेवाले होते हैं ॥ २९ ॥ ३० ॥

अथ शकुनलक्षण ।

वैद्यस्य गच्छतः कर्तुं चिकित्सां रोगिणो भवेत् । सिद्धिदं शकुनं सौम्यं दीप्तं नैव प्रशस्यते ॥ ३१ ॥

रोगीकी चिकित्सा करनेके लिये वैद्यको रोगीके घर जाते समय मार्गमें जो सौम्य शकुन हो तो शुभ और दीप्त शकुन हो तो अशुभ जानने ॥ ३१ ॥

मांसोदकुम्भातपत्रविप्रचारणगोवृषाः । शुक्लवर्णाश्च पूज्यन्ते प्रस्थाने दर्शनं गताः ॥ ३२ ॥

वैद्यको रोगीके घर जाते हुए यदि मार्गमें मांस, जलका कुम्भ, छत्री, ब्राह्मण, हस्ती, गाय, बैल और सफेद रंगके समस्त पदार्थ आवें तो शुभ शकुन जानने ॥ ३२ ॥

स्त्री पुत्रिणी सर्वता गौर्वर्द्धमानाः स्वलङ्कृता । कन्या मत्स्याः फलं चामं स्वस्तिको मोदको दधि ॥ ३३ ॥ हिरण्याक्षतदूर्वाश्च रत्नानि सुमनो नृपः । अप्रशान्तोऽनलो वाजी चाषो हंसः शिखी तथा ॥ ३४ ॥ भवन्ति दर्शनादेव भिषजः कार्यसिद्धिदाः । ब्रह्मदुन्दुभिनिर्घोषःशङ्खवेणुरथस्वनाः ॥ ३५ ॥ सिंहगोवृषनादोऽश्वत्थेषितं गजवृंहितम् । शस्तं हंसरुतं नृणां वाचश्च हृदयप्रियाः ॥ ३६ ॥

पुत्रवती स्त्री, बछेडियुक्त गाय, वर्द्धमानपदार्थ, अलंकृत कन्या, मछली, कच्चे फल, स्वस्तिक, (स्वस्तिक चिह्न सथिया अथवा मागलिक पदार्थ), मोदक, दही, सुवर्ण, अक्षत, दूब, रत्न, पुष्प, राजा, प्रवलित अग्नि, घोडा, नीलकण्ठ, हंस और मयूर ये शुभ शकुन वैद्यके कार्यको सिद्ध करते हैं । वेदध्वनि, दुन्दुभि और अन्यान्य मागलिक वाजोंके शब्द, शंख, वेणु और रथका शब्द, सिंह, गाय और बैल इनका नाद, घोडेका हींसना, हाथीका चिंघारना, हंसका शब्द और हृदयको प्रिय लगनेवाले मनुष्योंके वचन ये सब शुभ शकुन हैं ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

पत्रपुष्पफलोपेताः सक्षीरा नीरुजो ह्रुमाः । आश्रिता वा नभोवेश्म ध्वजतोरणवेदिकाः ॥ ३७ ॥

पत्र, फूल, फल और दूधयुक्त, एवं रोग रहित पृक्ष, जाड़ाश सम्बन्धी घर, अथवा ध्वजा, तोरण और वेदी इनके आश्रित जो शकुन हों तो वे शुभ जानने ॥ ३७ ॥

दिक्षु शान्तास्तु वक्तारो मधुरं पृष्ठतः खगाः । वासा वा दक्षिणा चापि शकुनाः कर्मसिद्धये ॥ ३८ ॥

शान्त दिशाओमें अथवा पीठके पीछे, बाँई ओर अथवा दहिनी ओर जो पक्षी मधुर शब्द करें तो कार्यकी सिद्धिके लिये शुभ शकुन जानने ॥ ३८ ॥

दक्षिणाद्दामगमनं प्रशस्तं श्वशृगालयोः । भासकौशिकयोश्चैवं नोभयं शशसर्पयोः ॥ ३९ ॥

कुत्ता और गीदड दोनोंका दहिनी ओरसे बाँई ओरको जाना शुभ शकुन है । गिद्ध और उल्लू इन दोनों पक्षियोंका बाँई ओर जाना यात्रामें श्रेष्ठ नहीं है । तथा खरगोश और सर्प इन दोनोंका बाँई ओरसे दहिनी ओर जाना अशुभ है ॥ ३९ ॥

दर्शनं वा रुतं वापि न गोधाकृकलासयोः । ग्रंथ्यर्बुदादिषु सदा छेदशब्दः प्रशस्यते ॥ ४० ॥

गोधा (गोय), कृकलास (गिर्गट) इन दोनोंका दर्शन और इनका शब्द दोनों ही अशुभसूचक जानने । ग्रंथि और अर्बुदादि रोगोंमें छेद शब्दका होना सदैव श्रेष्ठ है ॥ ४० ॥

विद्रध्युदरगुल्मेषु भेदशब्दस्तथैव च । रक्तपित्तातिसारेषु रुद्धशब्दश्च पूजितः ॥ ४१ ॥

विद्रधि, उदररोग और गुल्मरोग इनमें "भेद" शब्दका होना सदैव श्रेष्ठ है । रक्तपित्त और अनिसार रोगमें "रुद्ध" शब्दका होना सदैव शुभ है ॥ ४१ ॥ दौर्मर्मानस्यश्च वैद्यस्य यात्रायां नैव पूजितम् । वैद्यासनावसादो वा आ-

तुरो वाप्यधोमुखः ॥ ४२ ॥ वैद्यसं-
भाषणाङ्गानि कुड्यमात्तरणानि च ।
प्रमृज्याद्वाधुनीयाद्वा करौ पृष्ठं शिर-
स्तथा ॥ ४३ ॥ हस्तं चाकृष्य वैद्यस्य
न्यसेच्छिरसि चोरसि । न स सि-
द्धयति वैद्यो वा गृहे यस्य न पूज्य-
ते ॥ ४४ ॥

यात्राके समय वैद्यके चित्तमे उद्विग्नताका होना
सदैव अशुभ है । वैद्यको बैठनेके लिये जो आसन
दिया जाय उसका गिरना, रोगीका अधोमुख होना
और वैद्यसे सम्भाषण करते समय रोगीका अपने
अंगोंको रगडना अथवा मर्दन करना, अथवा दोनों
हाथोंसे पीठ और शिरको धुनना या रोगीका अपने
हाथसे वैद्यके हाथको खींचकर गिर और हृदयपर
रखना और जिस घरमे वैद्यका सत्कार नहीं होता
वहाँ कार्यकी सिद्धि नहीं होती ॥४२॥४३॥४४॥

वैद्यं यश्चोन्मुखं पृच्छेत्पार्श्वेण वा स्वा-
ङ्गमातुरः । भूयः संपूज्यते यस्य गृहे-
वैद्यः स सिद्धयति ॥ ४५ ॥

जो रोगी ऊँचा मुख करके अथवा करघटसे शयन
करके वैद्यसे अपने रोगका हाल कहे तो यह भी
शुभ नहीं है । जिस घरमे वैद्यकी अच्छेप्रकारसे
पूजा होती है, वहाँ जीव ही आरोग्य प्राप्त हो
जाता है ॥ ४५ ॥

शुभं शुभेषु दूतादिष्वशुभं ह्यशुभेषु
च । आतुरस्य ध्रुवं तस्मात्तद्दीर्घ-
क्षयेद्दिषक् ॥ ४६ ॥

दूत और गजकन इनके शुभ होनेपर शुभ फल और
अशुभ होनेपर अशुभ फल होता है । इस कारण वैद्य
रोगीके दूतादिककी अच्छेप्रकारसे परीक्षा करे ॥४६॥

अथ स्वप्नाधिकार ।

स्वप्नाध्यायं प्रवक्ष्यामि मरणाय शु-
भाय च । पश्यान्ति सुहृदो यांस्तु
स्वप्नान् स्वयमथापि वा ॥ ४७ ॥

अब यहाँसे स्वप्नाध्यायको कहते हैं । जिसको रोगीके
मित्र अथवा रोगी स्वयं देखता है और उससे
मृत्यु अथवा आरोग्य मालूम होता है ॥ ४७ ॥

स्नेहाभ्यङ्गशरीरस्तु करभव्यालगद-
भैः । मार्जारकापिशार्दूलशृगालैर्नारके-
न च ॥ ४८ ॥ तरक्ष्वीहामृगाभ्याश्च
भल्लुकेन शुनापि वा । वराहैर्भाहिषै-
र्वापि यो यायादक्षिणामुखः ॥ ४९ ॥

जो मनुष्य स्वप्नमे अपने शरीर पर तैलादिककी
मालिस करके हाथी व्याल (व्यात्र अथवा सर्प),
गधा, विलाव, वन्दर, सिंह, गदिड, हिसक पशु,
तरक्षु (व्यात्राविशेष), इहामृग (वृकविशेष),
रीछ, कुत्ता, सूकर और भैसा इनके ऊपर चढकर
दक्षिण दिशाको जाता है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥

कृष्णरक्ताम्बरधरा हसन्ती रक्तमूर्ध-
जा । यं चाकर्षति बध्वा स्त्री नृत्यन्ती
दक्षिणामुखम् ॥ ५० ॥

अथवा स्वप्नमे काले रंगके अथवा लालरंगके वस्त्र
धारण किए हुए, हँसती हुई, लालशिरवाली और
नाचती हुई स्त्री जिस मनुष्यको बाँधकर दक्षिणकी
ओर खींचे ॥ ५० ॥

अन्त्यावसायिभिर्यो वाकृष्यते द-
क्षिणामुखः । परिष्वजेयुर्यं वापि प्रे-
ताः प्रव्रजितास्तथा ॥ ५१ ॥

अथवा जिस मनुष्यको स्वप्नमे नीच चांडालादिक
दक्षिणकी तरफको खींचे या जिसको स्वप्नमे भ्रेत
और सन्यासी आलिंगन करे ॥ ५१ ॥

आघ्रायते यश्च मुहुः श्वापदैर्विकृतान-
नैः । पिबेन्मधु च तैलं वा यो वा पङ्केऽव-
सीदति ॥ ५२ ॥ पंकप्रलितगात्रो वा
नृत्येद्वापि हसेत्तथा । निरम्बरश्च यो
रक्तां शिरसा धारयेत् स्रजम् ॥ ५३ ॥
यस्य वंशोऽनलो वापि तालो वोरसि
जायते । मत्स्यादिभिर्ग्रसेद्यो वा नी-
रेऽग्नौ वा विलीयते ॥ ५४ ॥ उच्चादधः
पतेद्यस्तु श्वापदैर्वा निहन्यते । द्वियते
स्रोतसां यो वा यो वा मोहमवाप्नु-

यात् ॥ ५५ ॥ पराजीयेत वध्येत का-
काद्यैर्वाभिभूयते । पतनं तारकादी-
नां प्रणाशं दीपचक्षुषोः ॥ ५६ ॥
यः पश्येद्देवतानां वा प्रकम्पमवने-
स्तथा । यस्य च्छर्दिर्विरेको वा दश-
नाः प्रपतन्ति वा ॥ ५७ ॥

अथवा जिसको स्वप्नमें भयंकर मुखवाले कुत्ते
बारंवार सूंघे तथा जो स्वप्नमें शहद और तेलको
पान करे । किंवा जो स्वप्नमें कीचड़में गिरजाय
अथवा जो अपने शरीरमें कीचड़ लपेट कर नांचे
और हँसे तथा जो मनुष्य स्वप्नमें नम्र होकर लाल-
फूलोंकी मालाको शिरपर धारण करे या जिसके
हृदयमें बाँस, नरसल और ताड़के वृक्ष उत्पन्न हो
तथा जो स्वप्नमें मछली आदिकोंके द्वारा प्रसा जाय
अथवा जल और अग्निमें विलीन होजाय या जो
स्वप्नमें ऊपरसे नीचेको गिरे अथवा व्याघ्रादिकसे
माराजाय या नदीके जलके प्रवाहमें डूब जाय
या जो बेहोश होजाय जो स्वप्नमें दूसरोंके द्वारा
पराजित किया जाय अथवा बाँधा जाय या कौवे
आदि पक्षियोंके द्वारा पीडित किया जाय किंवा
जो स्वप्नमें तारे आदिकों पतित होता हुआ देखे
अथवा दीपकको बुझता हुआ और नेत्रोंको फूटता
हुआ देखे अथवा जो देवताओंकी मूर्तियोंको काँपता
हुआ या पृथ्वीको काँपता हुआ देखे ।
जिसके स्वप्नमें वमन और विरेचन हो तथा जिसके
दाँत टूट जाँय ॥ ५२-५७ ॥

शाल्मलीं किंशुकं यूषं वल्मीकं पा-
रिभद्रकम् । पुष्पाट्टयं कोविदारं वा
चितां वा योऽधिरोहति ॥ ५८ ॥

जो स्वप्नमें सेमल, ढाक, यूप, सौंपकी वैवई,
नीम और फूलोंसे आच्छादित कचनारका वृक्ष
देखे अथवा जो स्वप्नमें चिताके ऊपर बैठे ॥ ५८ ॥

कार्पासतैलपिण्याकलोहानि लवणं
तिलान् । लभेताश्नाति वा पक्कं मां-
सं यश्च पिबेत्सुराम् ॥ ५९ ॥

तथा जो स्वप्नमें कपास, तेल, खल, लोह, लवण
और तिलोंको प्राप्त करे अथवा भक्षण करे किंवा
पक्क मांसको भक्षण करे या जो स्वप्नमें मादिराको
पान करे ॥ ५९ ॥

यः स्वप्नेषु नरः पश्येद्रक्तकृष्णाम्ब-
रावृतान् । कृष्णांश्च विकृतान्व्य-
ङ्गान्दण्डपाशधरानपि ॥ ६० ॥ कुर्वे-
तो भर्त्सनं त्रासं दक्षिणाशां समा-
श्रितान् । स स्वस्थो लभते रोगं
व्याधितो मृत्युमृच्छति ॥ ६१ ॥

जो मनुष्य स्वप्नमें लाल, काले बच्चोंको धारण किये
हुए ऐसे काले रंगके, विकृत, व्यंग दंड और पाशको
धारण किये हुए तथा ग्लानिजनक वचनोंको कहते
हुए और त्रास देते हुए मनुष्योंको दक्षिण दिशामें
देखे तो वह स्वस्थमनुष्य रोगको प्राप्त होता है और
रोगी मनुष्य मृत्युको प्राप्त होता है ॥ ६० ॥ ६१ ॥

यथास्वंप्रकृति स्वप्नो विस्मृतो वि-
हितस्तथा । चिन्ताकृतो दिवा दृष्टो
भवन्त्यफलदास्तु ते ॥ ६२ ॥

अपनी प्रकृतिके अनुसार देखा हुआ स्वप्न जिस-
को देखकर मनुष्य भूलगया हो ऐसा स्वप्न अथवा
जो एक स्वप्नके पश्चात् दूसरा स्वप्न देखकर नष्ट हो
गया हो, या जो किसी प्रकारके विचार करनेसे
देखा हो और जो दिनमें देखा गया हो, ऐसे स्वप्न
निष्फल होते हैं ॥ ६२ ॥

ज्वरितानां शुना सख्यं शोषिणां
कपिभिस्तथा । उन्मादे राक्षसैः प्रे-
तैरपस्मारे प्रवर्त्तनम् ॥ ६३ ॥ मेहा-
तिसारिणां तोयपानं स्नेहस्य कुष्ठि-
नाम् । गुल्मेषु स्थावरोत्पत्तिः कोष्ठे
मूर्ध्नि शिरोरुजि ॥ ६४ ॥

जो ज्वर रोगी स्वप्नमें कुत्तेके साथ, शोष रोगी
बन्दर के साथ, उन्माद रोगी राक्षस के साथ और
अपस्मार रोगी प्रेतोंके साथ मित्रता करता है तथा
प्रमेह रोगी और अतिसार रोगी जलपान करे, कुष्ठ
रोगी स्नेह पान करे, गुल्म रोगीके उदरमें और
शिरोरोगी के सिरमें वृक्ष उत्पन्न हो ॥ ६३ ॥ ६४ ॥

पिपासाश्वासयोश्छर्द्या शङ्कुल्या-
श्वैव भक्षणम् । हरिद्राभक्षणं वापि
यद्भवेत्पांडुरोगिणः ॥ रक्तपित्ती पिबे-
द्यस्तु शोणितं स विनश्यति ॥ ६५ ॥

तथा जो तृपा, श्वास आरै वमनमें शङ्कुली (पूरी) को भक्षण करता है एवं पांडुरोगी हलदीको भक्षण करता है, और रक्त पित्तरोगी स्वप्नमें रुधिर को पान करता है तो ये सब नष्ट होजाते हैं ॥६५॥

श्रव्यादाक्रमणं श्मशानगमनं पाल-
स्तथोच्चादधी रक्तलग्नसनं विवाह-
कलहौ क्षौरं विरेको वमिः । बन्धं
लोहकपर्दलाभनदनं पंकागभसोर्म-
जनं दन्ताक्षिग्रहपादचर्मपतनं स्वप्ने
गदादिप्रदम् ॥ ६६ ॥

मांसका टूटना या खींचना, श्मशानभूमिमें जाना ऊंचसे नीचेको पतित होना, लालवस्त्र अथवा लाल फूलोंकी माला को धारण करना, विवाह और कलह देखना, क्षौर कर्म, विरेचन, वमन, बंधन, लोहा और कौडी इनकी प्राप्ति, नृत्य करना, कीचड और जलमें डूबना, दाँत, नेत्र, ग्रह, पांव और चमडा इनका पतित होना ये सब स्वप्नमें देखे तो अनेकप्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ६६ ॥

स्वप्नानेवंविधान् दृष्ट्वा प्रातरुत्थाय
यत्नवान् । दद्यान्माषांस्तिलाल्लोहं
विप्रेभ्यः काश्चनं तथा ॥ ६७ ॥

जो इस प्रकारके अनिष्टकारक स्वप्न देखे तो यत्नपूर्वक प्रातः उठकर उडद, तिल, लोहा और सुवर्ण इनका ब्राह्मणोंको दान देवे ॥ ६७ ॥

जपेद्वापि शुभान्मंत्रान् गायत्रीन्त्रि-
पदीं तथा । दृष्ट्वा तु प्रथमे यामे
स्वप्नान्धयायेत्पुनः शुभम् ॥ ६८ ॥

अथवा गायत्री, त्रिपदी आदि शुभ मंत्रोंको जपे । यदि रात्रिके प्रथम प्रहरमें दुष्टस्वप्न देखे तो शुभवस्तु का स्मरण करके सो रहे ॥ ६८ ॥

जपेद्धान्यतमं देवं ब्रह्मचारी समाहि-
तः । न चाऽऽचक्षीत कस्मैचिद्दृष्ट्वा
स्वप्नमशोभनम् ॥ ६९ ॥ देवतायतने
चैव वसेद्ब्राह्मिण्यं तथा । विप्रांश्च पू-
जयेन्नित्यं दुःस्वप्नात्परिसुच्यते ॥ ७० ॥

अथवा ब्रह्मचर्यको धारण करके अन्य किसी देवता की उपासना करे और दुष्टस्वप्न देखकर

किसीसे नहीं कहे अथवा तीन रात्रितक किसीदेवताके मंदिरमें निवास करे और नित्यप्रति ब्राह्मणोंका पूजन करे तो दुष्टस्वप्न शीघ्र ही नाश होते हैं ॥ ६९ ॥ ७० ॥

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि प्रशस्तस्वप्नदर्शनम् । देवान् द्विजान् गोवृषभान् जीवतः लुहदो नृपान् ॥ ७१ ॥ समिद्धमग्निं साधूँश्च निर्मलानि जलानि च । पश्येत्कल्याणलाभाय व्याधेरपगमाय च ॥ ७२ ॥

अब इसके उपरान्त शुभस्वप्नोंको कहते हैं । जो देवता, ब्राह्मण, गाय, बैल, जीवितमित्र, राजा, जलती हुई अग्नि, साधु और निर्मल जल इनको स्वप्नमें देखे तो कल्याणका लाभ और रोगका नाश होता है ॥ ७१ ॥ ७२ ॥

युद्धे चात्मजयं दृष्ट्वा नरः सुखमवाप्नु-
यात् । उरगो वृश्चिको भृङ्गो मक्षिका-
श्च जलौकसः । स्वप्ने दृशन्ति यं तस्य
धनारोग्ये विनिर्दिशेत् ॥ ७३ ॥

जो स्वप्नमें अपनेको युद्धमें जयको प्राप्त हुआ देखे तो वह शीघ्रही सुखको प्राप्त होता है । जिसको स्वप्नमें साँप, बिच्छू, भौरा मक्खी और जौक ये काटें तो उसको धन और आरोग्य प्राप्त होता है ॥ ७३ ॥

मांसं मद्यं स्रजः श्वेता वासांसि च फ-
लानि च । लभेत् कल्याणलाभाय
व्याधेरपगमाय च ॥ ७४ ॥

मांस, मदिरा, रुधिर, श्वेतवस्त्र और श्वेत फल यह स्वप्नमें देखे तो कल्याणका लाभ और रोगका नाश होता है ॥ ७४ ॥

वीणाद्यादर्शसुश्वेतवसनात्पवारणम् ।
गुर्वङ्गनादि भोगो यः सोऽर्थदो गद-
नाशनः ॥ ७५ ॥

वीणा आदि वादित्र, दर्पण, श्वेतवस्त्र, छत्र, स्थूल स्त्रीके साथ प्रसंग यह जो स्वप्नमें देखे तो धनकी प्राप्ति और रोगका नाश होता है ॥ ७५ ॥

विषस्यापक्रमांसस्य गवादीनां विशेषतः । भक्षणं विद्विलेपश्च रोदनं मरणं निजम् ॥ दृष्ट्वा जागरणं कुय्यदिर्यलाभाय रोगनुत् ॥ ७६ ॥

जो स्वप्नमें विषको भक्षण करे अथवा अपक मांसको भक्षण करे या गोमांसको भक्षण करे अपने शरीरपर विषका लेप करे अथवा अपनेको रोता हुआ या मरा हुआ देखे तो जागते ही धनकी प्राप्ति और रोगका नाश होता है ॥ ७६ ॥

नदीनदसमुद्रांश्च क्षुभितान् कलुषोदकान् । तरेत् कल्याणलाभाय व्याधेरपगमाय च ॥ ७७ ॥

जो स्वप्नमें नदी, नद और क्षोभित समुद्र तथा कलुषित जल इनमें तैरे तो कल्याणका लाभ और रोगका नाश होता है ॥ ७७ ॥

वृषाश्वगजसौधाग्रनौशैलद्रिवनस्पतीन् । आरोहेद्द्रव्यलाभाय व्याधेरपगमाय च ॥ ७८ ॥

जो मनुष्य स्वप्नमें बैल, घोड़ा, हाथी और मंदिरका अग्रभाग, नौका, पर्वत और हरेवृक्षके ऊपर चढता है उसको द्रव्यकी प्राप्ति होती है और उसके रोगका नाश होता है ॥ ७८ ॥

इत्यादिकाञ्छुभान् स्वप्नान् दृष्ट्वा फलसमृद्धये । स्तुत्वा देवान् द्विजातिभ्यो दद्यात्स्वर्णं च भोजनम् ॥ ७९ ॥

इत्यादि शुभस्वप्नोंको देखकर फलकी समृद्धिके लिये देवताओंकी स्तुति करके ब्राह्मणोंको सुवर्ण और भोजन देवे ॥ ७९ ॥

भूयो दृष्टश्रुतध्याताऽनुभूतेष्टैकगोचराः । स्वप्नो निरर्थकाजीर्णोच्छिष्टभावादिसम्भवः ॥ ८० ॥

बारंबार देखे और सुने हुए, ध्यान किए हुए, अनुभव किए हुए, कल्पित, इच्छित, जाने हुए, अजीर्ण अवस्थामें देखे हुए और उच्छिष्टादि कारणोंसे उत्पन्न हुए ऐसे स्वप्न प्रायः निष्फल होते हैं ॥ ८० ॥

अथ कालज्ञान ।

अकस्माच्छीलविकृतिरकस्माद्बुद्धत्तमम् । अकस्मादिन्द्रियोत्पत्तिः सन्निपाताग्रलक्षणम् ॥ ८१ ॥

जिसका अकस्मात् स्वभाव विकृत् अर्थात् बदल जाय और अकस्मात् शरीर उत्तम होजाय और अकस्मात् इन्द्रियोकी उत्पत्ति हो तो ये सन्निपातके पूर्व लक्षण है ॥ ८१ ॥

शरीरशीलयोर्यस्य प्रकृतेर्विकृतिर्भवेत् । तदरिष्टं समासेन व्यासतश्चनिबोध मे ॥ ८२ ॥

जिस मनुष्यका शरीर और शील तथा प्रकृति यह विपरीतभावको प्राप्त होजायँ उसको अरिष्ट कहते हैं । अर्थात् शरीर पुष्टसे कृश होजाय और कृशसे पुष्ट हो जाय तथा श्यामसे गौरवर्ण होजाय और गौरवर्णसे श्यामवर्ण होजाय तथा जो धर्मात्मासे पापी हो जाय और पापीसे धर्मात्मा होजाय और कफ प्रकृतिसे पित्त प्रकृति होजाय और पित्तप्रकृतिसे कफप्रकृति होजाय यह संक्षेपसे अरिष्टके लक्षण कहे । अब आगे विस्तारपूर्वक कहते हैं ॥ ८२ ॥

व्यञ्जनानि सुतो विद्या बुद्धिर्मेदा धनं यशः । स्वल्पे वयासि यश्चैतन्न स जीवञ्चिरन्नरः ॥ ८३ ॥

जिसके व्यञ्जन (परिग्रह), पुत्र, विद्या, बुद्धि, मेदा, धन और यश ये सब थोड़ी ही अवस्थामें प्राप्त होजायँ वह मनुष्य शीघ्र ही मृत्युको प्राप्त होजाता है ॥ ८३ ॥

भक्तिः शीलं स्मृतिस्त्यागो मेधाबलमनुत्तमम् । भजन्ति वा निवर्तन्ते षड्भिन्न्वासैर्भरिष्यति ॥ ८४ ॥

जिसके भक्ति, शील, स्मरणशक्ति, त्याग, मेधा और बल ये अकस्मात् अपूर्व रीतिसे एक साथ प्राप्त होजायँ अथवा एक साथ नष्ट होजायँ तो वह मनुष्य छः महीनेमें मृत्युको प्राप्त होजाता है ॥ ८४ ॥

शृणोति विविधान् शब्दान् यो दिव्यानसतो बहून् । ससुद्रपुरमेघाना-

मसम्पत्तौ च निःस्वनाः ॥ ८५ ॥ तान्
स्वरान्नावगृहीति गृहीति चान्यशब्द-
वत् । ग्राम्यारण्यस्वनांश्चापि विपरी-
तान् शृणोति च ॥ ८६ ॥

जो मनुष्य अनेकप्रकारके दिव्य शब्दोंको या बहुतसे
अशुभ शब्दोंको सुने तथा समुद्र, नगर और मेघ इनके
अभावमें इनके शब्दोंको सुने अथवा इनके शब्द होने
परभी नहीं सुने अथवा विपरीतभावसे श्रवण करे ।
या ग्राम्यके शब्दोंको वनके शब्दोंके समान और
वनके शब्दोंको ग्राम्य शब्दोंके समान श्रवण करे तो
उसको गतायु जानना ॥ ८५ ॥ ८६ ॥

द्विषच्छब्देषु रमते सुहृच्छब्देषु दुःख्य-
ति । यश्चाकस्माद् शृणुते स गतायु-
रिति स्मृतः ॥ ८७ ॥

जो द्वेषीके शब्दोंको सुनकर प्रसन्न होता है और
मित्रोंके प्रियशब्द सुनकर कुपित होता है और जो
अकस्मात् नहीं सुनने लगता है उसको गतायु
जानना ॥ ८७ ॥

यस्नूष्णसमये शीतमुष्णं जानाति
शीतके । सञ्जातशीतपिडको यश्च
दाहे न पीड्यते ॥ दाहार्त्तो यश्च रो-
माश्ची पञ्चत्वं तस्य निश्चितम् ॥ ८८ ॥

जो गर्मीके समय शीतको और शीतके समय गर्मी
को जाने और जिसके शरीरमें शीतकी पीडिका
उत्पन्न हो और फिर वह दाहसे पीडित हो और
जिसके दाह होनेपर रोमांच हो आवे उसकी शीघ्रही
मृत्यु जानना ॥ ८८ ॥

उष्णगात्रोऽतिमात्रश्च यश्च शतिन
वेपते । प्रहारं नाभिजानाति स याया-
द्यममन्दिरम् ॥ ८९ ॥

जो अत्यन्त गरम शरीर होनेपर भी अत्यन्त शीत-
की वाधासे काँपे और जिसको अनेकप्रकारकी चोट
लगनेपरभी बोध नहीं हो वह अवश्य यममंदिरको
जाता है ॥ ८९ ॥

पांशुनेवावकीर्णानि यस्तु गात्राणि
मन्यते । नानावर्णाश्च राज्यो वा य-
स्य गात्रे भवन्ति हि ॥ ९० ॥ ज्ञातोऽनु-

लिप्तं यं वापि सेवन्ते नीलमक्षिकाः ।
सुगन्धिर्वाति चाकस्मात्तं भुवन्ति
गतायुषम् ॥ ९१ ॥

जो अपने शरीरको विना ही धूलके धूलसे व्याप्त
देखे अथवा जिसके शरीरपर अनेकप्रकारकी रोम-
राजी उत्पन्न होजाय और जिसके स्नान करनेपर भी
देहपर नीले रंगकी मक्खी आनकर बैठे अथवा जिसके
शरीरमें अकस्मात् सुगंध उत्पन्न होजाय उसको गतायु
जानना ॥ ९० ॥ ९१ ॥

सुगन्धं वेत्ति दुर्गन्धं दुर्गन्धं सुरभिं
तथा । विपरीते न गृह्णाति भावान्य-
श्चोपसेवितान् ॥ ९२ ॥

जो सुगन्धको दुर्गन्ध समझे और दुर्गन्धको सुगंध
समझे इस प्रकार विपरीत भाव हो तो उसको
गतायु जानना ॥ ९२ ॥

क्रमोपयुक्ताश्च रसा यस्य दोषाभिवृ-
द्धये । यस्य दोषाग्निसात्म्यश्च कुर्यु-
र्मिथ्यापयोजिताः ॥ यो वा रसान्न
संवेत्ति तं वदन्ति गतायुषम् ॥ ९३ ॥

जिसके क्रमपूर्वक प्रयोग किये हुए भी रस दोषोंको
वढावे और जिसके मिथ्यारीतिसे सेवन किये हुए रस
भी दोषोंको और अग्निको सात्म्यताको करे अथवा
जो रसोंको नहीं जाने उसको गतायु जानना ॥ ९३ ॥

शृणोत्यापीडिते कर्णे न यो धुकधुक-
ध्वनिम् । यो वा गन्धं न गृह्णाति
शान्तदीपस्य मानवः ॥ ९४ ॥

जो कानके पीडित होनेपर "धुक २" शब्दको
नहीं श्रवण करे अथवा जिस मनुष्यको बुझे हुए दीप-
ककी गंध नहीं आवे उसको गतायु जानना ॥ ९४ ॥

दिवा ज्योतीषि यश्चापि ज्वलितानि
पश्यति । चन्द्रं सूर्यमिवाचष्टे
सूर्यं वा चन्द्रवर्चसम् ॥ ९५ ॥ अमे-
घोपप्लवे चापि शक्रचापतडिहुणान् ।
तडिद्वन्तोऽसितान् वापि निर्मले ग-
गने घनान् ॥ ९६ ॥ विमानयान-

प्रासादैर्यश्च संकुलमम्बरम् । यश्चानि-
लं मूर्तिमन्तमन्तरिक्षे च पश्यति ॥
॥ ९७ ॥ उष्णशीतादिकान् भावान्
कालावस्थादिशस्तथा । विपरीतेन
गृह्णाति भावानन्यांश्च यो नरः ॥९८॥

जो दिनमें तारेआदिकोंको प्रज्वलित रूपसे देखे
तथा सूर्यविम्बको चन्द्रविम्बके समान और चन्द्र-
विम्बको सूर्यविम्बके समान देखे अथवा निना ही
मेघोंके (बादलोंके) इन्द्रधनुष और बिजली आदिको
देखे और जो निर्मल आकाशमें बिजली युक्त काले
मेघोंको देखे । शून्य आकाशको विमान, वाहन और
अनेकप्रकारके मंदिर आदिसे व्याप्त देखे तथा जो
वायुमें अनेकप्रकारकी मूर्तियोंको देखे अथवा आका-
शमें अनेकप्रकारकी मूर्तियोंको देखे। जो मनुष्य उष्ण
शीतादि भावोंको विपरीत जाने अर्थात् शीतको उष्ण
और उष्णको शीत समझे तथा काल, अवस्था और
दिशा इनको विपरीत जाने और अनेकप्रकारके
अन्यान्यभावोंको उलटा जाने उसको गतायु जानना
॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७-॥ ९८ ॥

धूमनीहारवासोऽभिरावृतामिव मे-
दिनीम् । प्रदीप्तमिव चाकाशं यो
वाप्लुतमिवाम्भसि ॥ भूमिमष्टप-
दाकारां रेखाभिर्यश्च पश्यति ॥ ९९ ॥
अरुन्धतीं ध्रुवञ्चैव विष्णोरपि पद-
त्रयम् । न पश्येत् स गतायुः स्याच्च-
तुर्थम्मातृमण्डलम् ॥ १०० ॥

जो मनुष्य धुआ, तुफान (बर्फ) और वस्त्रोंसे
आच्छादित पृथ्वीको देखे तथा जो आकाशको
प्रज्वलित अथवा जलमें डूबता हुआ देखे । जो
पृथ्वीको अष्टपदाकार रेखाओंसे व्याप्त देखे । जो
मनुष्य अरुन्धती, ध्रुव, विष्णुके त्रिपद अर्थात्
श्रवण नक्षत्रके तीन तारे और चतुर्थ मातृमण्डल
अर्थात् कृत्तिकाके छः तारे इनको नहीं देखे उसको
गतायु जानना ॥ ९९ ॥ १०० ॥

रसज्ञारुन्धती ज्ञेया घ्राणाग्रं च ध्रुवं
विदुः । भ्रुवोर्मध्यं पदं विष्णोस्ता-
रकामातृमण्डलम् ॥ १०१ ॥

यहां जिह्वाको अरुन्धती, नासिकाके अग्रभागको
ध्रुव, भौके बीचके स्थानको विष्णुपद और नेत्रोंके
तारे को मातृमण्डल कहते हैं । अर्थात् जिसको यह
उपर्युक्त जिह्वा और नासिकाका अग्रभाग आदि
नहीं दीखे उसको गतायु जानना ॥ १०१ ॥

ज्योत्स्नादर्शोष्णतोयेषु छायां यश्च
न पश्यति । पश्यत्येकाङ्गहीनां वा
विकृतां बान्धसत्वजाम् ॥ १०२ ॥

जो मनुष्य ज्योत्स्ना (चांदनी) दर्पण, धूप और
जलमें अपनी छायाको नहीं देखे अथवा एक अंग-
हीन देखे किम्वा विकृत अगवाली देखे या किसी
अन्य प्रकारसे देखे तो उसको गतायु जानना ॥ १०२ ॥

श्वकाकंककगृध्राणां प्रेतानां यक्षरक्ष-
साम् । पिशाचोरगनागानां भूतानां
विकृतामपि ॥ १०३ ॥

अथवा कुत्ता, कौआ, कंक, गीध, प्रेत, यक्ष, राक्षस,
पिशाच, उरग, सर्प और भूत इत्यादिको अथवा
अन्य किसी भयंकर प्राणियों की आकृति देखे तो
उसकोभी गतायु जानना ॥ १०३ ॥

ह्रीश्रियो नश्यतो यस्य बुद्धिर्मेधा
स्मृतिस्तथा । अकस्माद्यं भजन्ते च
सगतासुरसंशयम् ॥ १०४ ॥

जिसके लज्जा, काति, बुद्धि, मेधा और स्मरण-
शक्ति ये सब अकस्मात् नष्ट हो जाँय उसको गतायु
जानना ॥ १०४ ॥

यस्याधरोष्ठः पतितः क्षिप्तश्चोर्ध्वन्त-
थोत्तरः । उभौ वा जाम्बवाभासौ
दुर्लभं तस्य जीवितम् ॥ १०५ ॥

जिसका नीचेका होठ नीचेको लटकजाय और
ऊपरका होठ ऊपरको चढजाय अथवा दोनों ओष्ठ
जामुनकी समान नीलवर्ण होजाँय उसको गतायु
जानना ॥ १०५ ॥

आरक्ता दशना यस्य श्यावा वाथ
पतन्ति च । खञ्जनप्रतिमा वापि तं
गतायुषमादिशेत् ॥ १०६ ॥

जिसके दांत-लाल या श्यामवर्ण (लाल फाले मिश्रित)होजाय किवा टूट टूट कर गिरने लगै अथवा खंजन पक्षीके समान होजाय उसको गतायु जानना ॥ १०६ ॥

अकस्माद्गदनं यस्य कुंकुमाभं प्रजायते । अङ्गकम्पो गतिभ्रंशो यदि वा स न जीवति ॥ १०७ ॥

जिसका मुख अकस्मात् केशरके वर्णके समान होजाय तथा शरीर कांपने लगे और जो गमन करनेमें असमर्थ होजाय तो वह मनुष्य नहीं जीता है ॥ १०७ ॥

पीडयते कुण्डली यस्य नाभिस्थाहारबन्धना । दह्यते यस्य चाहारः स वर्षेण मृतिं व्रजेत् ॥ १०८ ॥

जिसकी नाभिमें स्थित आहारकी बंधनरूप कुण्डली पीडित हो और भोजन करनेपर दाह उत्पन्न हो तो वह मनुष्य एक वर्षमें मरजाता है ॥ १०८ ॥

अकस्माद्यः, कृशः स्थूलो भवेत् स्थूलोऽथवा कृशः । प्रकृतिं वा त्यजेच्छीघ्रमष्टमासान् स जीवति ॥ १०९ ॥

जो मनुष्य अकस्मात् कृशसे स्थूल होजाय अथवा स्थूलसे कृश होजाय और जिसका शीघ्रही स्वभाव बदल जाय वह आठ महीनेमें अवश्य मृत्युको प्राप्त होता है ॥ १०९ ॥

कृष्णास्तच्चावलिता च जिह्वा शूना च यस्य वै । कर्कशा वा भवेद्यस्य सोऽचिराद्विजहात्यसून् ॥ ११० ॥

जिसकी जिह्वा काली, लिसीसी, सूजन युक्त और कर्कश (खरखरी) होजाय वह शीघ्रही मृत्युको प्राप्त हो जाता है ॥ ११० ॥

कुटिला स्फुटिता वापि प्रलुता यस्य नासिका । भग्ना विस्फुरिता वापि स परासुरसंशयम् ॥ १११ ॥

जिसकी नासिका टेढ़ी, फटीसी, मुन्न, टूटीसी और स्फुरण करती हो अर्थात् उसमेंसे पवन संचार करती हो उसको गतायु जानना ॥ १११ ॥

केशाः सीमन्तिनो यस्य संक्षिप्ते विनते भ्रुवौ । लुनन्ति चाक्षिपद्माणि स परासुरसंशयम् ॥ ११२ ॥

जिसके बालोंमें सीमन्त (मांग) पलजाय अकस्मात् घूंघरवाले होजाय भौंहेँ सिकुड जाँय और पलकोंके बाल टूटकर गिरें उसको शीघ्रही गतायु जानना ॥ ११२ ॥

न धारयति यः शीर्षत्राहरत्यन्नमास्यगम् । नखांगुलित्रयं चापि दन्ताः शुष्यन्ति यस्य च ॥ एकाग्रदृष्टि-मूढात्मा स परासुरसंशयम् ॥ ११३ ॥

जो मनुष्य अपने शिरको धारण करनेमें असमर्थ होजाय अर्थात् जिसकी शीर्षा शिरको धारण नहीं करसके और जो मुखमें दिचे हुए प्रासको नहीं निगल सके एवं जिसके नख और तीन अंगुलि तथा जिसके दाँत सूखने लगे और जो एक दृष्टिसे एकओर को देखता हो और जो मूर्ख अर्थात् जड़सा होजाय उसको गतायु जानना ॥ ११३ ॥

बलवान् दुर्बलो वापि संमोहं योऽधिगच्छति । उत्थाप्यमानो बहुशः स परासुरसंशयम् ॥ ११४ ॥

जो बारवार उठानेपरभी मोहके वज होकर गिर गिर पड़े अर्थात् बेहोश होजाय तब वह दुर्बल हो अथवा बलवान् हो तो भी मृत्युको प्राप्त हो जाता है ॥ ११४ ॥

उत्तानः सर्वदा शेतो पादौ विकुरुते च यः । विप्रसारणशाली वा स परासुरसंशयम् ॥ ११५ ॥

जो मनुष्य अपने पावकों सदैव ऊपरको करके शयन करे अथवा बारम्बार टेढ़े तिरछे करे अथवा सिकोटे हा रक्खे, कभी नहीं फैलावे तो वह अवश्य मृत्युको प्राप्त होता है ॥ ११५ ॥

शीतपादकरोच्छ्वासश्च्छिन्नोच्छ्वासश्च यो भवेत् । काकोच्छ्वासश्च यो मर्त्यः स परासुरसंशयम् ॥ ११६ ॥

जिसके पांव, हाथ और श्वास ये शीतल होजाय तथा, जिसको रुकरुफकर श्वास आवे अथवा जो कौवेके समान श्वास लेवे वह मनुष्य शीघ्रही मृत्युको प्राप्त होता है ॥ ११६ ॥

निद्रा न च्छिद्येत यस्य यो वा जागति सर्वदा । मुह्येद्वा वक्तुकामश्च प्रत्याख्येयः स जानता ॥ ११७ ॥

जो मनुष्य निरंतर सोयाही करे अथवा जो सदैव जागाही करे और बोलनेकी इच्छा होनेपर बेहोश होजाय उसको वैद्य त्याग देवे ॥ ११७ ॥

खेभ्यः सरोमकूपेभ्यो यस्य रक्तं प्रवर्तते । पुरुषस्याविषार्त्तस्य स परासुरसंशयम् ॥ ११८ ॥

विषके नहीं सेवन करनेपरभी जिसके रोमकूपोसे रुधिर निकले वह मनुष्य शीघ्रही प्राणोंको त्याग देते है ॥ ११८ ॥

अनन्योपद्रवकृतः शोथः पादसमुद्भवः । पुरुषं हन्ति नारीन्तु मुखजो गुह्यजो द्वयम् ॥ ११९ ॥

जो सूजन अपने कारणोंसे उत्पन्न हुई हो वह यदि प्रथम पाँवोमे उत्पन्न हुई हो तो पुरुषको और मुखमे उत्पन्न हुई हो तो स्त्रीको और जो गुह्यस्थानमें उत्पन्न हुई हो तो स्त्री पुरुष दोनोंको मार देती है ॥ ११९ ॥

अतिसारो ज्वरो हिक्का छर्दिः शूलोद्गभेदनम् । कासिनः श्वासिनो वापि यस्य तं परिवर्जयेत् ॥ १२० ॥

जिस खाँसी और श्वासवाले रोगीके अतिसार, ज्वर, हिचकी, वमन, शूल और अंगमे तोडनेसरीखी पीडा हो तो उसको वैद्य त्याग देवे ॥ १२० ॥

स्वेदो दाहश्च बलवान् हिक्का श्वासस्तथैव च । बलवन्तमपि प्राणैर्वियुञ्जीत न संशयः ॥ १२१ ॥

अत्यत स्वेद, दाह, हिक्का और श्वास ये अत्यन्त बड़े हुए बलवान् रोगीके भी प्राणोंको नष्ट कर देते है ॥ १२१ ॥

श्यावा जिह्वा भवेद्यस्य सर्वश्चाक्षिनिमज्जति । मुखं च जायते पूतिर्यस्य तं परिवर्जयेत् ॥ १२२ ॥

जिस मनुष्यकी जीभ काली पड़जाय, नेत्र भीतरको घुसजाय और मुखमे दुर्गन्ध आने लगे ऐसे रोगीको वैद्य त्याग देवे ॥ १२२ ॥

वक्रमापूर्यतेऽश्रुभ्यः खिद्येते चरणौ तथा । चक्षुश्चाकुलतां याति यमराष्ट्रं गमिष्यति ॥ १२३ ॥

जिसरोगीका मुख आँसुओंसे परिपूर्ण होजाय, दोनों पाँव पसीनेसे भीज जाँय और नेत्र व्याकुल होजाय वह अवश्य यमराजके घरको जाता है १२३ ॥

अतिमात्रं लघूनि स्युर्गात्राणि गुरुकानि च । यस्याकस्मात् स विज्ञेयो गन्ता वै यमशासनम् ॥ १२४ ॥

जिस मनुष्यका बहुत भारीशरीर अकस्मात् हलका होजाय वह मनुष्य शीघ्र ही यममंदिरको जाता है ॥ १२४ ॥

पङ्कमतस्यवसातैलघृतगन्धाश्च ये नराः । पूतिगन्धाश्च ये चाति गन्तारस्ते यमालयम् ॥ १२५ ॥

जिन मनुष्योंके शरीरमेंसे कीचड, मछली, चर्बी, तेल, घी की गन्ध और अनेकप्रकारकी दुर्गन्ध आवे तो वे शीघ्र ही यमपुरको जाते हैं ॥ १२५ ॥

ज्वरात्तिसारशोथाः स्युर्यस्यान्योन्यावसादिनः । प्रक्षीणबलमांसस्य स न शक्यश्चिकित्सितुम् ॥ १२६ ॥

जिस मनुष्यके ज्वर, अतिसार और शोथ ये अन्यान्य उपद्रवयुक्त हो तथा जिसका बल और मांस क्षीण होगया हो उसकी चिकित्सा कदापि नहीं करनी चाहिये ॥ १२६ ॥

यूका ललाटमायान्ति बलिं नाश्रन्ति वायसाः । येषां चापि रतिर्नास्ति गतास्ते यममन्दिरम् ॥ १२७ ॥

जिनके सस्तकपर बारंबार जुएँ चलें और जिनकी दीहुई बलिको कौवे न खाँय और जिनको कही भी चैन न पडे वे अवश्य यममंदिरको जाते है ॥ १२७ ॥

क्षीणस्य यस्य क्षुत्तृष्णे हृद्यैर्मिष्टैर्हितैस्तथा । अन्नपानैर्न शाम्येते तस्य मृत्युरुपस्थितः ॥ १२८ ॥

जिस क्षीणमनुष्यकी क्षुधा और तृषा हृदयको हितकारी, मधुर और हितकारक अन्नपानोंसे शांत न हो उसकी शीघ्रही मृत्यु जाननी ॥ १२८ ॥

प्रवाहिका शिरःशूलं कोष्ठं शूलश्च दारुणम् । पिपासा बलहानिश्च तस्य मृत्युरुपस्थितः ॥ १२९ ॥

जिसके एक साथ प्रवाहिका, शिरःशूल, कोठ, शूल, प्यास और बलका नाश ये सब हों उसकी शीघ्रही मृत्यु जाननी ॥ १२९ ॥

निवर्तते महाव्याधिः सहसा यय
देहिनः । उत्पद्यते च वा यस्य सहसा
स विनश्यति ॥ १३० ॥

जिसके महाभयंकर रोग शीघ्रही एकदम नष्ट हो-
जाय अथवा एक साथ उत्पन्न हो होजाय वह शीघ्रही
मृत्युको प्राप्त होता है ॥ १३० ॥

न चाहारबलं यस्य दृश्यते स विन-
श्यति । नासाभङ्गो भवेद्यस्य सप्तरात्रं
स जीवति ॥ १३१ ॥

जिस मनुष्यके क्रिये हुए भोजनका कुछभी बल
मालूम नहीं होता वह शीघ्रही मृत्युको प्राप्त होता है।
जिस मनुष्यकी नासिका बैठजाय वह सातदिनमें
मरजाता है ॥ १३१ ॥

चिकित्स्यमानः सम्यक् च विकारो
योऽभिवर्द्धते । प्रक्षीणबलमांसस्य
लक्षणन्तद्गतायुषः ॥ १३२ ॥

जिसका बल और मांस क्षीण हो गया हो ऐसे
मनुष्यकी अच्छे प्रकार चिकित्सा करने परभी
रोगकी वृद्धि हो तो उसको गतायु जानना ॥ १३२ ॥

यस्याण्डे निगते मेढुसुत्सिक्तमथवा-
न्यथा।अचिरान्म्लानमम्लानं माल्यं
मूर्ध्नि चिरादपि॥१३३॥भामण्डलं न प-
श्येद्यो मार्जिते नयने नरः विकृतं वाथ
सम्पश्येत्स गतायुरिति ध्रुवम्॥१३४॥

जिसके अंडकोश नीचेको अलग लटकजाय और
लिंग ऊपरको सिकुडजाय तो वह शीघ्रही मृत्युको
प्राप्त होता है । जिसके शिरपर विकसित पुष्पोंकी
धारण की हुई माला शीघ्रही मुरझा जाय, जो प्रक्षा-
लित नेत्रोंसे प्रभामंडलको नहीं देखे अथवा विकृत
रूपसे देखे उसको गतायु जानना ॥ १३३ ॥ १३४ ॥

भ्रुवौ केशाः ससीमन्ताः सावर्त्ता अ-
पि मृत्यवे । कपोतो वायसो गृध्रः
काकोल्यौ यस्य मूर्द्धनि ॥ क्रव्यादो

वापि लीयिते षण्मासायुः स उच्य-
ते ॥ १३५ ॥

जिसकी भौं और केशोंकी चांटीसी बंधजाय
अथवा वेष्टित होजाय उसको मृत्युके मुखमें प्राप्त-
हुआ जानना । जिसके कवूतर, काँवा, गिट्ट, काँक
और उल्लू शिरपर बैठकर मांसको भक्षण करें
उसकी छः महीनेमें मृत्यु जाननी ॥ १३५ ॥

व्याप्यते पांशुवर्षेण काकपक्षिश्च ता-
ड्यते । स्वप्नेऽपि यो नरस्तस्य मृतिर्मा-
सचतुष्टयात् ॥ १३६ ॥

जो मनुष्य स्वप्नमें अपने शरीरके ऊपर धूलीकी
वर्षा देखे और काँवेकं पंखोंसे ताडित देखे उसकी
चार महीनेमें मृत्यु जाननी ॥ १३६ ॥

यस्याभिषिक्तमात्रस्य हृदि नीरं प्रशु-
ष्यति । पिबतोऽपि जलं शोषः स्या-
दशाहं स जीवति ॥ १३७ ॥

जिसके स्नान करतेही प्रथम हृदय परका जल
सूख जाय और जिसके जलपान करनेपरभी दाह
(खुश्की) हो तो वह दशदिनतक जीता है ॥ १३७ ॥

स्थापयित्वा करं भूमौ निरुन्ध्या-
न्मध्यमांगुलिम् । प्रहरेण भवेन्मृत्यु-
र्यद्युत्तिष्ठेदनामिका ॥ १३८ ॥

हाथको भूमिमें स्थापन करके उसमें मध्यमा
अंगुलीको स्थापन करे इसप्रकार करनेसे यदि
अनामिका अंगुलि हाथको स्पर्श न करे अर्थात्
अलग उठी रहे तो उसकी एक प्रहरमें मृत्यु
जाननी ॥ १३८ ॥

मध्याह्ने विमलेऽम्बरे दिनमणेर्विंबं जले
निर्मले पश्येत्पात्रगते यदा गतयुतः पू-
र्णन्तदा स्याच्छुभम् ॥ हिनं दक्षिण-
पश्चिमोत्तरपुरोभागेषु मासैः क्रमात्
षट्त्रिद्व्येकमितैर्दिनैश्च दशभिश्छि-
द्रं सधूमं दिनैः ॥ १३९ ॥

मध्याह्नके समय आकाशके निर्मल होनेपर स्वच्छ
जल भरे हुए पात्रमें रोगी सूर्यमण्डलको देखे जो
सूर्यमण्डल पूर्ण दीखे तो शुभ जानना । यदि

दक्षिणकी ओर हीन दीखे तो छः महीनेमें, पश्चिमकी ओर हीन देखे तो तीन महीनेमें, उत्तरकी ओर हीन देखे तो दो महीनेमें और पूर्वकी ओर हीन देखे तो एक महीनेमें मृत्यु जाननी । और वह यदि छिद्र और धूम-युक्त दीखे तो दश दिनमें मृत्यु जाननी ॥ १३९ ॥

हस्तयोः पादयोश्चापि कनिष्ठायाश्च सन्धयः । चत्वारो यस्य भिद्यन्ते तुल्यं मासात्स मृत्युभाक् ॥ १४० ॥

जिसके हाथ, पांव, कनिष्ठा अंगुलि और सन्धि ये चारो भिदी हुई रहें तो एक महीनेमें मृत्यु जाननी ॥ १४० ॥

**कपोलमांसविच्छेदो मृत्युः स्यात्त-
श्चरात्रतः । चक्षुर्नासिकयोर्मध्ये स्य-
न्दाभावेन पञ्चमे ॥ १४१ ॥**

जिसके कपोलोंके मांसका विच्छेद हो उसकी पांच दिनमें मृत्यु जाननी । जिसके नेत्र और नासिकाके बीचके भागका क्षरण हो उसकी भी पांच दिनमें मृत्यु जाननी ॥ १४१ ॥

**मृत्युः स्यादथ गात्राणां स्तब्धत्वादे-
कवासरे । ललाटस्य त्रिरेखाणां ना-
शान्मृत्युरहस्ये ॥ १४२ ॥**

जिसका शरीर अकस्मात् स्तब्ध होजाय उसकी एक दिनमें मृत्यु जाननी । जिसके मस्तककी तीन रेखायें नष्ट होजाय उसकी तीन दिनमें मृत्यु जाननी ॥ १४२ ॥

**सताहान्मृत्युरङ्गस्य शीतताद्धस्य
चोष्णता । अकस्माद्बृषणं निम्नं प-
क्षान्मृत्युप्रदं भवेत् ॥ १४३ ॥**

जिसका आधा अंग शीतल और आधा अंग गर्म हो उसकी सात दिनमें मृत्यु कहनी । जिसके अण्डकोप अकस्मात् नीचेको लटक जाय उसकी एक पक्षमें मृत्यु जाननी ॥ १४३ ॥

**ग्रीवायाः स्कन्धयोर्नाड्योर्विच्छेदा-
दपि पक्षतः । अकस्मात्कृष्णरेखा
स्याज्जिह्वाया यदि मध्यतः ॥ दृष्टो वा
दन्तसंदंशस्तदा मृत्युद्विरात्रतः ॥ १४४ ॥**

जिसकी ग्रीवा और स्कंधोकी नाडियोंका विच्छेद होजाय उसकी एक पक्षमें मृत्यु होती है । जिसकी

जिह्वाके बीचमें अकस्मात् काली रेखा दिखाई दे अथवा दांतोंके काटनसे दृढ होजाय उसकी तीन दिनमें मृत्यु जाननी ॥ १४४ ॥

**रात्राविन्दुवधं पश्येद्दिवा नक्षत्रम-
ण्डलम् । अमेवे विद्युतं पश्येत स्फुर-
न्ती दक्षिणाश्रिताम् । जले चेन्द्रधनु-
र्जीवेद्वित्रिमासान् स मानवः ॥ १४५ ॥**

जो रात्रिमें चन्द्रमाको नष्ट होता हुआ देखे और दिनमें तारोंको देखे तथा बिना मेघके दक्षिण दिशामें चमकती हुई विजलीको देखे और जलमें इन्द्रधनुष को देखे वह मनुष्य दो महीनेमें अथवा तीन महीनेमें मृत्युको प्राप्त होता है ॥ १४५ ॥

**दिवा छायां न यः पश्येदुल्कायाः
पतनं तथा । हंसकाकमयूराणां पश्ये-
देकत्र मेलनम् ॥ १४६ ॥ चन्द्रद्वन्द्वं
द्विसूर्यं वा स्वशिरोज्वलनं तथा ।
गन्धर्वनगरं वापि वृक्षाग्रे शिखरे
गिरौ ॥ १४७ ॥ पश्येत्तत्र पिशाचा-
नां रूपमन्यच्च भीषणम् । प्रकम्पितो
भृशं चैव मूर्च्छितो वा भवेन्मुहुः ॥
॥ १४८ ॥ छर्देन्मूत्रं पुरीषं वा सुव-
र्णरजतप्रभम् । प्रत्यक्षं यदि वा स्वमे
दशमासान्स जीवति ॥ १४९ ॥**

जो दिनमें अपनी छायाको न देखे अथवा उत्कापात देखे, हंस, कौवे और मोरोंको एकत्र क्रीडा करते हुए देखे तथा दो चन्द्रमा और दो सूर्योंको देखे और अपने शिरको जलता हुआ देखे एवं गन्धर्वनगरको देखे और अपने आपको वृक्षके अग्रभाग पर अथवा पर्वतके शिखरपर चढता हुआ देखे और पिशाच या अन्यान्य भयंकर रूपोंको देखकर कांपे अथवा वारंवार मूर्च्छित होजाय तथा सुवर्ण और चांदीके समान वर्णवाले मूत्र या मलको वमन करता हुआ देखे । इन सब विषयोंको प्रत्यक्ष देखे अथवा स्वप्नमें देखे तो वह दश महीनेतक जीता है ॥ १४६-१४९ ॥

**कंठोष्ठतालुरसना दन्ता यस्य पृथक्
पृथक् । शुष्यत्यभीक्षणं षणमासान्तस्य
मृत्युं विनिर्दिशेत् ॥ १५० ॥**

कंठोष्ठतालुरसना दन्ता यस्य पृथक् पृथक् । शुष्यत्यभीक्षणं षणमासान्तस्य मृत्युं विनिर्दिशेत् ॥ १५० ॥

जिसके कण्ठ, ओष्ठ, तालु, जीभ और दाँत ये अलग अलग सूखें तो उसकी छः महीनेमे मृत्यु कहनी ॥ १५० ॥

सप्तर्षिचन्द्रनक्षत्रदिशां रात्रावदर्शनात् । कलंकरहितं चन्द्रं सूर्यं रश्मिविवर्जितम् ॥ १५१ ॥ अग्निं तेजोविहीनञ्च सोमश्चाप्यपरश्मिकम् । रात्रौ सूर्यं दिवा चन्द्रं स्वनेत्रे ज्वलनं तथा ॥ १५२ ॥ नाभौ हिक्कां गुदे राजीं वर्णम्पद्मोपमं मुखे । गण्डेऽतिरिक्तापिडकां गात्रे वर्णविचित्रताम् ॥ १५३ ॥ हृदये स्फुरणश्चाशु प्रकम्पमथ तालुनि । चन्द्रच्छिद्रं रविच्छिद्रं पश्येद्भूमौ तथाम्बरे ॥ आत्मनैव हियः पश्येत्पश्येन्मृत्युं त्रिपक्षतः ॥ १५४ ॥

जो सप्तर्षि, चन्द्रमा, नक्षत्र और दिशा इनको रात्रिमे नहीं देखता अथवा कलंकरहित चन्द्रमा और किरणरहित सूर्यको देखता है तथा तेज रहित अग्नि और वांति रहित चन्द्रमाको देखता है तथा रात्रिमें सूर्यको और दिनमें चन्द्रमाको तथा अपने नेत्रोको जलता हुआ देखता है । और जिसकी नाभिमें हिक्का, गुदापर रोमराजि, मुखपर कमलके समान वांति, गण्डस्थल पर अतिगय पिडिका और शरीरका वर्ण विचित्र होजाय तथा जिसके हृदयमें अत्यन्त शीघ्रतासे स्फुरण और तालुमें कम्प हो, एवं अपने आपही पृथ्वीमे और आकाशमे चन्द्रमा और सूर्यको छिद्रयुक्त देखे तो उसकी तीन पक्षमे मृत्यु कहनी ॥ १५१ ॥ १५२ ॥ १५३ ॥ १५४ ॥

मूत्रशुक्रपुरीषाणि तुल्यकालं पतन्ति चेत । वर्षान्मृत्युर्भवेत्तस्य भेषजादिक्रिया वृथा ॥ १५५ ॥ कर्णयोर्यादि नौ शब्दस्तर्जनीभ्यां निरुद्धयोः । जायते प्राप्तकालस्य लक्षणं तत्समादिशेत् ॥ सर्वाङ्गशीतलत्वञ्च दशाहान्मरणं वदेत् ॥ १५६ ॥

जिसके मूत्र, शुक्र और मल ये तीनों एकसाथ एक कालमे पतित हों उसकी एक वर्षमे मृत्यु जाननी । उसकी औपधादि क्रिया करनी व्यर्थ है । यदि तर्जनी अंगुलियोंसे दोनों कानोंके बन्द करनेपर जिसको शब्द प्रतीत नहीं हो तो उसकी मृत्युका समय आया हुआ जानना और जिसका सम्पूर्ण शरीर शीतल हो उसकी दशदिनमे मृत्यु कहनी चाहिये ॥ १५५ ॥ १५६ ॥

कर्दमे पांशुदेशे वा पुरतः पृष्ठतोऽपि वा । खण्डपादोदये नूनं मृत्युर्मासचतुष्टयात् ॥ १५७ ॥

जिसका आगेसे अथवा पीछेसे धूलमे अथवा कीचडमे पड़ेहुए पाँवका प्रतिबिम्ब साफ नहीं दीखे उसकी चार महीनेमें मृत्यु जाननी ॥ १५७ ॥

श्रुतिबाधिर्यतो मृत्युश्चतुर्मासान्तरे भवेत् । स्वस्थेन्द्रियस्य पततो मृत्युर्मासत्रयाद्भवेत् ॥ १५८ ॥ भ्रूमध्ये ज्योतिषो दृष्टो द्विमासाद्यमदर्शनम् । एकमासान्तथा मृत्युर्घर्षणे गोलकक्षयात् ॥ १५९ ॥ जिह्वाया अपवृत्तौ च दशाहान्मृत्युसंगमः । दक्षिणाशां गतां छायामात्मनो यदि पश्याति ॥ अथैव मृत्युरस्माकमिति पश्येदन्तित्यताम् ॥ १६० ॥

जो कानोके निर्दोष होनेपर भी बहरा सुने उसकी चार महीनेमे मृत्यु जाननी, स्वस्थ होनेपर भी जिसकी इन्द्रियें पतितहों उसकी तीन महीनेमे मृत्यु जाननी । जो दोनो भौके बीचमे जोतिको देखे उसकी, दो महीनेमें मृत्यु जाननी, जिसके दोनो नेत्रोंके गोलकोंका क्षय होगया हो या बारम्बार घर्षण हो, उसकी एक महीनेमे मृत्यु जाननी । जिह्वाकी अपवृत्ति हो तो दश दिनमे मृत्यु जाननी । जो मनुष्य अपनी छायाको दक्षिण दिशामे स्थित हुई देखे तो उसकी संसारको अनित्य समझकर मृत्यु कहनी ॥ १५८ ॥ १५९ ॥ १६० ॥

स्वस्थस्य स्थूलजिह्वा चेन्निःस्पर्शारसवर्जिता । यावत्पञ्चदिनं मृत्युः पञ्चाशद्विसेऽथ वा ॥ १६१ ॥

जिस स्वस्थ मनुष्यकी जिह्वा अकस्मात् स्थूल स्पर्शरहित और रसरहित होजाय उसकी पांच दिनमें अथवा पचास दिनमें मृत्यु कहनी ॥ १६१ ॥

अम्लादित्वञ्च रसतो नीलादित्वञ्च वर्णतः । विकारे शुक्रमूत्राणां षण्मासाद्यमदर्शनम् ॥ १६२ ॥

जो आम्लादिक रसोंको और नीलादिक वर्णोंको अन्यप्रकारसे जाने तथा जिसके वीर्य और मूत्रमें विकार हो उसकी छः महीनेमें मृत्यु कहनी ॥ १६२ ॥

युगत्रिपञ्चधारं वा वर्त्यावर्तिसुगांधि वा । मूत्रं यस्य भवेत्तस्य मृत्युः षण्मासमध्यतः ॥ १६३ ॥

जिसके मूत्रकी एक साथ दो धारे, तीन धारें, अथवा पाँच धारे सुगन्धयुक्त, क्रमसे अथवा क्रमरहित निकलती हो तो उसकी छः महीनेमें मृत्यु कहनी ॥ १६३ ॥

स्थिरत्वेऽपि स्वदेहस्य तच्छाया चञ्चला यदि । चतुर्मासाद्भवेन्मृत्युरित्यागमविदो विदुः ॥ १६४ ॥

जिसके शरीरके स्थिर होनेपर भी उसकी छाया चंचल हो तो उसकी चार महीनेमें मृत्यु जाननी ॥ १६४ ॥

ज्वरो यस्य तु पूर्वाह्ने शुष्ककासश्च दारुणः । बलमांसविहीनस्य दुर्लभं तस्य जीवितम् ॥ १६५ ॥ ज्वरो यस्यापराह्ने तु श्लेष्मकासश्च दारुणः । प्रक्षीणबलमांसस्य दुर्लभं तस्य जीवितम् ॥ १६६ ॥

यदि बल और मांसहीन मनुष्यके पूर्वाह्नके समय ज्वर तथा दारुण शुष्क खाँसी हो तो उसका जीवन दुर्लभ जानना तथा जिस क्षीणबल और क्षीण मांसवाले मनुष्यके अपराह्नके समय ज्वर और दारुण कफकी खाँसी हो तो उसका जीवन भी दुर्लभ जानना ॥ १६५ ॥ १६६ ॥

प्रेतैः सह पिबेन्मद्यं स्वप्ने यः कृष्यते शुना । स घोरं ज्वरमासाद्य सद्यः प्राणैर्विसुच्यते ॥ १६७ ॥

जो मनुष्य स्वप्नमें प्रेतोंके साथ मद्यपान करता है और जिसको कुत्ते खींचते हैं वह घोर ज्वरको प्राप्त होकर तत्काल प्राणोंको त्याग देता है ॥ १६७ ॥

सहसा ज्वरसन्तापस्तृष्णामूर्च्छा बलक्षयः । विश्लेषणं च सन्धिनां सुमूर्षोरुपजायते ॥ १६८ ॥

जिसके अकस्मात् एक साथ ज्वर, सन्ताप, तृषा, मूर्च्छा, बलका नाश और सन्धियोंका टूटना ये सब लक्षण हो उसको मृत्युके सुखमें पतित हुआ जानना ॥ १६८ ॥

गोसर्गे वदनाद्यस्य स्वेदः प्रच्यवते भृशम् । लेपज्वरोपसृष्टस्य दुर्लभं तस्य जीवितम् ॥ १६९ ॥ देवद्विजसुहृद्द्वैद्यगुरुन्यो द्वेष्टि यस्य वा । मज्जन्यप्सु शकृच्छ्लेष्मरेतांसि स न जीवति ॥ १७० ॥

जिस कफज्वरवाले मनुष्यके प्रातःकाल सुखसे अत्यन्त पसीना गिरे, उसका जीवन दुर्लभ जानना । तथा जो देवता, ब्राह्मण, इष्ट, मित्र, वैद्य और गुरुजनोसे विनाकारण द्वेष करने लगता है तथा जिसका मल, कफ और वीर्य जलमें डालनेसे डूब जाते हैं उसको गतायु जानना ॥ १६९ ॥ १७० ॥

इत्यादि लक्षणैर्ज्ञात्वा मरणं समुपस्थितम् । लोकद्वयसुखप्राप्त्यै धर्ममेव समाचरेत् ॥ १७१ ॥

इसप्रकार उपर्युक्त लक्षणोंसे मरणको उपस्थित जानकर दोनों लोकोंमें सुखकी प्राप्तिके लिये यत्नपूर्वक धर्मको करे ॥ १७१ ॥

सौम्याकारेन्द्रियः श्रोता द्रष्टा वक्ता च विन्दति । सम्यक् स्पर्शं रसं गन्धं रोगी रोगात्प्रमुच्यते ॥ १७२ ॥

जिसका शरीर और इन्द्रिये सौम्य है तथा जो अच्छेप्रकारसे सुनता है, देखता है, कहता है एवं स्पर्श, रस और गन्धको जानता है वह रोगी रोगसे छूट जाता है ॥ १७२ ॥

स्वल्पो ज्वरो भवेद्यस्य जिह्वा भवति कोमला । उष्णो पादौ तथा पाणी स रोगी सुखमाप्नुयात् ॥ १७३ ॥

जिसको ज्वर अल्प हो, जिसकी जिह्वा कोमल हो पांशु और हाथ गरम हो वह रोगी सुखको प्राप्त होता है ॥ १७३ ॥

ज्वरः स्वेदविहीनः स्यात् कण्ठः कफविवर्जितः । नासाभार्गगतिः प्राणो यस्य रोगी स जीवति ॥ १७४ ॥

जो ज्वररोगी स्वेदहीन हो, जिसका कंठ कफसे रहित हो और जिसकी नासिकाके द्वारा पवन अच्छे-प्रकारसे संचार करती हो वह रोगी रोगसे मुक्त हो जाता है ॥ १७४ ॥

भवेन्निद्रा सुखं यस्य स्मृतिभ्रंशो न जायते । नाकारवर्णहानिः स्यात् स रोगी जीवति ध्रुवम् ॥ १७५ ॥

जिसको सुखपूर्वक निद्रा आवे और जिसकी स्मरणशक्ति न्यून नहीं हुई हो तथा जिसकी चेष्टा और वर्ण नहीं विगडा हो वह रोगी अवश्य आरोग्य होजाता है ॥ १७५ ॥

यस्यादरो भवेद्वैद्ये प्रीतिर्भेषज्यकर्मणि । पथ्ये रुचिः स्पृहा धर्मं स रोगी जीवति ध्रुवम् ॥ १७६ ॥ इत्यादिलक्षणैर्वैद्यः साध्यं विज्ञाय रोगिणम् । आयुर्वेदोक्तमार्गेण चिकित्सां सम्यगाचरेत् ॥ १७७ ॥

जिसके यहां वैद्यका अच्छे प्रकारसे सत्कार होता है और जो औषधिमें प्रीति करता है तथा पथ्यमें रुचि और धर्ममें इच्छा रखता है वह रोगी निश्चय आरोग्य होजाता है । इसकारण इत्यादि लक्षणोंसे वैद्य रोगीको साध्य समझकर आयुर्वेदोक्तरीतिके द्वारा अच्छे प्रकारसे चिकित्सा करे ॥ १७६ ॥ १७७ ॥

अथ नेत्रपरीक्षा ।

रौद्रे रूक्षे च धूम्राभे नयने स्तब्धचञ्चले । तथाभ्यन्तरकृष्णाभे भवतो वातरोगिणः ॥ १७८ ॥ पित्तरोगे तु पीताभे नीले वा रक्तवर्णके । सन्तप्ते भवतो दीपं सहेते नावलोकितुम् ॥ १७९ ॥

वातरोगीके नेत्र भयकर, रूखे, धुँके समान काँतिवाले, जडसे अथवा बन्धसे, चञ्चल और भीत-

रसे काले रंगके होते हैं । पित्तरोगमें नेत्र पीलेरंगके, नीलेरंगके अथवा लाल रंगके और सन्तप्त होते हैं तथा दीपक आदि प्रदीपपदार्थोंके देखनेको अममर्त्य होते हैं ॥ १७८ ॥ १७९ ॥

ज्योतिर्हीने च शुक्लाभे जलपूर्णं सर्गो-रवे । मन्दावलोकने नेत्रं भवतः कफकोपतः ॥ १८० ॥

कफके रोगमें नेत्र ज्योतिर्हीन, मफेदरंगके जलमें भरे हुए, भारी और मन्द अवलोकन करनेवाले होते हैं ॥ १८० ॥

तन्द्रामोहाकुले श्यामे निर्भुम्ने रूक्षरौद्रके । रक्तवर्णे च भवतो नेत्रे दीपत्रयादये ॥ १८१ ॥

त्रिदोषके प्रकोपमें नेत्र तन्द्रा और मोहसे आकुलित, श्यामवर्ण, टेढे, रूखे, भयानक और लालरंगके होते हैं ॥ १८१ ॥

दोषत्रये भवेच्चिह्नं नेत्रयोस्तु त्रिदोषजम् । दोषद्वयप्रकोपे तु भवेदोषद्वयोद्भवम् ॥ १८२ ॥

त्रिदोषजनेत्रोंमें प्रायः तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं दो दोषोंके कोपमें दो दोषोंके लक्षण होते हैं ॥ १८२ ॥

एकदृष्टिर्यदा नेत्रे स्वाधीनि न च रोगिणः । उन्मीलिते च भवतः क्षणादेव निमीलिते ॥ १८३ ॥ सततोन्मीलिते नेत्रे यद्वा नित्यं निमीलिते । विलुप्तकृष्णतारे च भ्रमद्वृत्तोप्रतारके ॥ १८४ ॥ बहुवर्णे च भवतो विकृतानेकचेष्टिते । नेत्रे मृत्युं कथयतो रोगिणो नात्र संशयः ॥ १८५ ॥

जब रोगीके नेत्र स्वाधीन न हो और वह रोगी एक दृष्टिसे एकटकी लगाकर देखता रहे । अथवा क्षणभरमें खोल ले और क्षणभरमें बन्द करले या सदैव नेत्रोंको खुला रखे अथवा सदैव बन्द रखे, जिसके काले रंगका तारा लुप्त होजाय और धुँयेकेसे रंगका बड़ा तारा घूमने लगे तथा नेत्र अनेक प्रकारके रंगवाले विकृत और अनेक चेष्टावाले हो तो उस रोगीकी निःसन्देह मृत्यु कहना ॥ १८३-१८५ ॥

आरोग्यदृष्टिके लक्षण

सौम्यदृष्टी प्रसन्नाभे प्रकृतिस्थे मनो-
रमे । नेत्रे कथयतः शीघ्रं रोगशा-
न्ति च रोगिणः ॥ १८६ ॥

जिसकी दृष्टि सौम्य हो, नेत्र प्रसन्न हो और
यथा प्रकृतिमे स्थित हो और देखनेमें सुन्दर हो
तो उस रोगीके रोगकी शीघ्र ही शान्ति कहनी
चाहिये ॥ १८६ ॥

अथ मुखपरीक्षा ।

वातकोपे मुखं रूक्षं स्तब्धं वक्रं गत-
प्रभम् । पित्तकोपे भवेद्रक्तं पीतं वा-
परितक्तम् ॥ १८७ ॥ कफकोपे गुरु
स्निग्धं भवेच्छूनमिवाननम् । त्रिलि-
ङ्गश्च त्रिदोषे स्याद्विलिङ्गश्च द्विदो-
षके ॥ १८८ ॥

वातके प्रकोपमें मुख स्तब्ध (जडसा), रूखा,
टेढा और कांतिहीन होता है । पित्तके प्रकोपमें मुख
लाल, पीला अथवा सन्तापित होता है और कफके
कोपमें मुख भारी, चिकना और सूजासा होता है ।
त्रिदोषमें तीनों दोषोके लक्षण होते हैं और दो दोषोंके
प्रकोपमें दो दोषोंके लक्षण होते हैं ॥ १८७ ॥ १८८ ॥

अथ जिह्वापरीक्षा ।

वातकोपे प्रसृप्ता वा स्फुटिता मधुरा
भवेत् । स्तब्धा वर्णेन हरिता जिह्वा
लालां प्रमुञ्चति ॥ १८९ ॥

वायुके प्रकोपमें जिह्वा सुप्त (सुन्न), फटीसी, मधुर
स्तब्ध (जड), हरेरंगकी और लारको गिराती है ॥ १८९ ॥

पित्तकोपे तु रक्ताभा तिस्रा दग्धेव
जायते । जिह्वा दाहान्विता विद्धा
कण्टकैरिव सर्वतः ॥ १९० ॥

पित्तके प्रकोपमें जिह्वा लालरंगकी, कडवी, जले
हुएके समान, दाहयुक्त और चारों ओरसे कोंटोंसे
व्याप्त होती है ॥ १९० ॥

कफोदये भवेज्जिह्वा स्थूला गुर्वी वि-
लेपनी । सुस्थूलकण्टकोपेता क्षारा
बहुकफावहा ॥ १९१ ॥ दोषद्वये द्वि-
दोषोक्तलक्षणा रसना भवेत् । सर्व-

चिह्वा त्रिदोषे स्याद्विकृतानेकलक्षणा
॥ १९२ ॥

कफके प्रकोपमें जिह्वा स्थूल, भारी, लिसीसी, स्थूल,
कोंटोंसे व्याप्त, खारी और बहुत कफयुक्त होती है
तथा दो दोषोंके प्रकोपमें जिह्वा दो दोषोंके लक्षणों-
वाली और त्रिदोषके प्रकोपमें सम्पूर्ण लक्षणोवाली
तथा अनेक प्रकारके विह्वल लक्षणोंसे युक्त होती है-
॥ १९१ ॥ १९२ ॥

अथ मूत्रपरीक्षा ।

रात्रेश्चतुर्थयामस्य घटिकानां चतु-
ष्टये । उत्थाप्य रोगिणं वैद्यो मूत्रो-
त्सर्गन्तु कारयेत् ॥ १९३ ॥ आद्य-
न्तधारां सन्त्यज्य मध्यमां काचभा-
जने । कारयेत्कांस्यपात्रे वा कुय्या-
त्पात्रं पटावृतम् ॥ १९४ ॥ ततः सू-
र्योदये जाते प्रकाशे सति भाजने ।
स्थितं मूत्रं समालोक्य कुय्यात्तस्य
परीक्षणम् ॥ वाते तोयसमं मूत्रं रूक्षं
बहुतरं भवेत् ॥ १९५ ॥

रात्रिके चौथे प्रहरमें चार घड़ीके तडके वैद्य
रोगीको उठाकर मूत्रका त्याग करावे । पहली और
अन्तकी धाराको पृथ्वीपर गिराकर बीचकी धाराको
कांचके पात्रमें अथवा कांसीके पात्रमें ग्रहण करावे
और उसको अच्छे प्रकारसे ढककर रख देवे । फिर
सूर्यके उदय होनेपर जब अच्छे प्रकारसे प्रकाश
होजाय तब अथवा सूर्यकी धूपमें पात्रमें रखे हुए
मूत्रको देखकर उसकी परीक्षा करे । वातके प्रकोपमें
मूत्र जलके समान, रूक्षता और अधिक परिमाणमें
होता है ॥ १९३ ॥ १९४ ॥ १९५ ॥

रक्तवर्णम्भवेत्पित्ते पीतं वा स्वल्प-
मेव च । कफे श्वेतं घनं मूत्रं स्निग्धं स-
ञ्जायते तथा । द्विदोषे द्वन्द्वचिह्नं
स्यात् सर्वलिङ्गं त्रिदोषजे ॥ १९६ ॥

पित्तके प्रकोपमें मूत्रका रंग लाल या पीला तथा
थोडा मूत्र होता है और कफके प्रकोपमें मूत्रका वर्ण
सफेद, गाढा और चिकना होता है । दो दोषोंके
प्रकोपमें दो दोषोंके लक्षणों वाला होता है और

त्रिदोषके प्रकोपमें मूत्रका वर्ण सस्यपूर्ण दोषोंके लक्षणों युक्त होता है ॥ १९६ ॥

अब अन्यप्रकारसे मूत्रकी परीक्षा कहते हैं ।

सुलक्षितं गृहीतं यन्मूत्रं धर्मे निधा-
य तत् । तैलबिन्दुं क्षिपेत्तत्र निश्चल
वैद्यसत्तमः ॥ १९७ ॥ जायन्ते बुद्बु-
वुदा यत्र विकारः सोऽस्ति पित्तलः ।
रूक्षश्च श्यामलच्छायं वाते मूत्रं प्र-
जायते ॥ १९८ ॥ तरीमुपारि बध्नाति
तैलबिन्दुस्तथात्र वै । मूत्रं श्लेष्मणि
जायेत समं पल्वलवारिणा ॥ १९९ ॥
मूत्रेण सार्द्धमिलितस्तैलबिन्दुः प्र-
जायते । सिद्धार्थतैलसदृशं मूत्रं वै
पित्तमारुते ॥ २०० ॥

मूत्रको उत्तमविधिसे ग्रहण करके धूपमे रखदेवे। फिर प्रवीण वैद्य उसके निश्चल होजाने पर उसमें तैलकी वूँदें डाले। जब मूत्रमें तैलकी वूँदें डालनेसे मूत्र बुद्बुदाकार अर्थात् बबूलेके समान होजाय तो उसके पित्तका विकार जानना । वातके विकारमें तैलकी वूँदें डालने से मूत्र रूखा और कालासा हो जाता है। और इसमें तैलकी वूँदे मूत्रके ऊपर तैरती रहती है। कफके विकारमें तैलकी वूँदें डालनेसे मूत्र कीचके समान अथवा तालावके जलके समान हो जाता है। इसमें तैलकी वूँदे मूत्रके साथ मिल जाती हैं। और वात पित्तके विकार में तैलकी वूँदे डालनेसे मूत्रका वर्ण सरसोंके तैलके समान होजाता है। ॥ १९७ ॥ १९८ ॥ १९९ ॥ २०० ॥

श्वेतधारा महाधारा पीतधारा तदा
ज्वरः । रक्तधारा ज्वरे दीर्घं कृष्णा
च मरणाय वै ॥ २०१ ॥

सफेद धारा, महाधारा और पीली धारा ज्वररोग में होती है। लालधारा महाज्वरमे होती है और काली धारा रोगीकी मृत्युके लिये होती है ॥ २०१ ॥

श्लेष्मवाते भवेन्मूत्रं काञ्जिकेन सम-
न्तथा । पांडुरं श्लेष्मपित्ते च पीतश्चै-
व परीक्षयेत् ॥ २०२ ॥

कफवातमें कांजीके समान मूत्रका वर्ण होता है और कफपित्तमे मूत्र पांडुरंगका और पीलेरंगका होता है ॥ २०२ ॥

सन्निपाते च यन्मूत्रं कृष्णं तल्लक्ष्ये-
द्वबुधः । काञ्जिकेन समं मूत्रं मातुलु-
ङ्गसमप्रभम्। पानीयेन समं मूत्रं विका-
ररहितं भवेत् ॥ २०३ ॥

सन्निपातमे मूत्रका वर्ण काला होता है कांजीके समान, विजैरे नींबूके समान और जलके समान मूत्र निर्दोष होता है ॥ २०३ ॥

रक्तवातेन रक्तं स्यात् कौसुम्भं रक्त-
पित्तलः ॥ २०४ ॥

रक्तवातमें मूत्रका रंग लाल होता है और रक्त-पित्तरोगमे मूत्रका वर्ण कसूमके समान लाल होता है ॥ २०४ ॥

तैलतुल्यं भवेन्मूत्रं नित्यं सहजपि-
त्तलः । कफप्रकृतितो मूत्रं तुल्यं पल्व-
लवारिणा ॥ २०५ ॥ वातप्रकृतितो
मूत्रं नीराभं बहुलं भवेत् । अधो बहु-
लमारक्तं मूत्रमालोक्यते यदा ॥ व-
दन्ति तदतीसारलिङ्गं तल्लिङ्गवेदिनः
॥ २०६ ॥

स्वाभाविक पित्तमे मूत्रका वर्ण तैलके समान होता है। कफप्रकृतिवालेका मूत्र कीचके जलके समान अथवा तालावके जलके समान होता है। वातप्रकृति वाले मनुष्यका मूत्र जलके समान और अधिकतर होता है। जो मूत्र नीचेसे बहुतसा लाल दीखे उसको अतीसार जानना ॥ २०५ ॥ २०६ ॥

जलोदरसमुद्भूतं मूत्रं घृतकणोपमम् ।
आमवातवशान्मूत्रं तक्रतुल्यं प्रजा-
यते ॥ २०७ ॥

जलोदररोगमे मूत्र घृतके कणोके समान होता है। और आमवातमे तक्रके समान मूत्र होता है ॥ २०७ ॥

मलेन पीतवर्णश्च बहुलश्च निगद्यते ।
पीतवर्णं यदा मूत्रं तैलतुल्यं सबुद्बुदम्।
तदप्यसाध्यमादिष्टं सद्भिर्वैद्यकवे
दिभिः ॥ २०८ ॥

मलकी अधिकतासे मूत्रका वर्ण पीला और मूत्र अधिकतर होता है। जिसका मूत्र पीलेरंगका हो और उसमें तेलके समान बबूले हो तो उस रोगीको वैद्यक शास्त्रके जाननेवालोंने असाध्य कहा है ॥ २०८ ॥

अजीर्णं भवेन्मूत्रं श्वेतश्चापि तथा-
रुणम् । अजामूत्रसमं मूत्रमजीर्णत्वाच्च
जायते ॥ २०९ ॥

अजीर्णमे मूत्रका वर्ण सफेद और लाल होता है तथा वकरीके मूत्रके समान भी होता है ॥ २०९ ॥

मूत्रन्तु कृष्णतां याति क्षयरोगे तथा
किल । क्षयरोगे यदा श्वेतमसाध्यं
तद्विनिर्दिशेत् ॥ २१० ॥

क्षयरोगमें मूत्रका रंग काला होता है और जो क्षय रोगमें मूत्रका रंग सफेद हो तो असाध्य जानना २१० पीतमच्छश्च जायेतमूत्रं पित्तादये सति । समधातोः पुनः कूपजलतुल्यश्च कथ्यते ॥ २११ ॥

पित्ताधिक्यमें मूत्रका वर्ण पीला और स्वच्छ होता है। और धातुओंके समान होनेपर मूत्र कुँएके जलके समान होता है ॥ २११ ॥

ऊर्ध्वत्रीलमधोरक्तं रुधिरण प्रजा-
यते ॥ २१२ ॥

रुधिरका प्रकोप होनेसे मूत्र ऊपरसे नीला और नीचेसे लाल होता है ॥ २१२ ॥

प्रवर्तते यदा मूत्रं स्निग्धं तैलसमप्र-
भम् । आहारादुदरन्तस्य वृद्धिं याति
तदा किल ॥ २१३ ॥

जो मूत्र तेलके समान चिकना हो उसके आहारसे उदरकी वृद्धि जाननी ॥ २१३ ॥

ऊर्ध्वम्पीतमधोरक्तं मूत्रं चेद्रोगिण-
स्तदा । पित्तप्रकृतिसंभूतं सन्निपातं
वदद्विषक् ॥ २१४ ॥

जो मूत्र ऊपरसे पीला और नीचेसे लाल हो तो उसरोगीके पित्तोत्पन्न सन्निपात कहना चाहिए २१४ ॥

यस्येशुरससंकाशं मूत्रं नेत्रे च पि-
ञ्जरे । रसाधिक्यं विजानीयाल्लघनं
तस्य निर्दिशेत् ॥ २१५ ॥

जिसका मूत्र ईखके रसके समान और नेत्र पिञ्जर (लाल, पीतवर्ण) हो तो उसके रसाधिक्य जानना । उस रोगीको लघन करावे ॥ २१५ ॥

रक्तं स्वच्छश्च यन्मूत्रं तज्ज्वराधिक्य-
लक्षणम् । धूम्रवर्णं यदा मूत्रं ज्वरा-
धिक्यं तदादिशेत् ॥ २१६ ॥

ज्वरकी अधिकतामे मूत्र लाल और निर्मल होता है । धूम्रवर्ण मूत्रभी ज्वरकी अधिकतामें होता है ॥ २१६ ॥

कृष्णमच्छश्च जानीयात् सन्निपात-
ज्वरोद्भवम् ॥ २१७ ॥

सन्निपातज्वरमे काला और स्वच्छ मूत्र होता है २१७ उपरिष्ठात्पीतवर्णमधःकृष्णं सबुद्बुदम् । मूत्रं प्रसूतदोषेण संशयो नात्र कश्चन ॥ २१८ ॥

जो मूत्र ऊपरसे पीले रंगका और नीचेसे काले रंगका तथा बुद्बुदाकारका हो तो उसके प्रसूत दोष जानना ॥ २१८ ॥

आपीतफेनरक्ताद्यमासितेशुरसोपम-
म् । पित्ते कफेऽनिले मूत्रं निरामे च
ज्वरे भवेत् ॥ २१९ ॥

पित्त, कफ, वात और निरामज्वरमे पीला, झागोयुक्त, लाल, काला और ईखके रसके समान मूत्रका वर्ण क्रमसे होता है ॥ २१९ ॥

अब तेलकी बूँद मूत्रमें डालनेसे वह फैलकर जैसा जैसा रूप प्रकट करती है उसको कहते हैं ।

यदा प्रसारमाप्नोति तैलं क्षेमं तदा-
दिशेत् । विन्दुरूपं यदा तैलमसा-
ध्यत्वाय रोगिणः ॥ २२० ॥

जो मूत्रमें तेलकी बूँद डालनेसे फैल जाय तो उसका रोग साध्य समझना और जो वह नहीं फैले अर्थात् विन्दुके आकार ही रहे तो उसको असाध्य समझना ॥ २२० ॥

प्रसरेत्पूर्वदिग्भागे पश्चिमे वा तथोत्तरे ।
तैलविन्दुस्तदा रोगविमुक्तिं रोगि-
णो दिशेत् ॥ २२१ ॥

जो मूत्रमें तेलकी वृद्ध डालनेसे पूर्वदिशाकी ओर अथवा पश्चिम या उत्तर दिशाकी ओर फल तो रोगी रोगसे मुक्त हो जाता है ॥ २२१ ॥

दक्षिणस्यामथैशाने आग्नेये नैर्ऋते तथा । वायव्ये चापि दिग्भागे प्रसरन्मृत्युसूचकः ॥ २२२ ॥

जो वह तेलकी वृद्ध दक्षिणकी अथवा ईशानकोणकी ओर अथवा वायव्य दिशाकी ओर फैले तो उसको मृत्युसूचक जानना ॥ २२२ ॥

निमज्जति यदा सूत्रे भ्रमन्वा नैव सर्पति । तदारिष्टं विजानीयाद्रोगिणो नात्र संशयः ॥ २२३ ॥

जो तेलकी वृद्ध मूत्रमें डालनेसे डूबजाय अथवा घूमती रहे और फैले नहीं तो उस रोगीकी निश्चय मृत्यु जाननी ॥ २२३ ॥

तैलप्रसारणान्मूत्रे विकृताकारमूर्त्तयः । हलकूर्मखरोष्ट्रादेर्भवन्ति मृत्तिसूचकाः ॥ २२४ ॥


जो तेलकी वृद्ध मूत्रमें डालनेसे फलकर अनेक प्रकारकी विकृत मूर्त्तियेंसी होजाय अथवा उसमें हल, कछुआ, गधा और ऊँट आदिकासी आकृति दीखे तो उस रोगीको असाध्य जानना ॥ २२४ ॥

यदि मूत्रगते तैले हंसच्छत्रादिकं भवेत् । रोगी रोगविमुक्तः स्यान्दायुश्चाप्तुयाञ्चिरम् ॥ २२५ ॥

जो मूत्रमें तेल डालनेसे हंस और छत्रादिकासा आकार वाला होजाय तो रोगी रोगसे मुक्त होकर बहुत कालतक जीता रहता है ॥ २२५ ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकायां अरिष्टाधिकार समाप्त ॥ ९४ ॥

अथ दीपनपाचनद्रव्यलक्षण-
धिकार ।



पचेन्नामं वह्निकृद्यदीपनं तद्यथा भि-
सिः।पचत्यामन्न यत् कुर्यादनलं तद्वि

पाचनम् ॥ नागकेसरवाद्रियाञ्चित्रो
दीपनपाचनः ॥ १ ॥

अथ दीपन, पाचन आदि शब्दोंके लक्षण कहते हैं जो औषधि आमको नहीं पचावे, केवल अग्निको दीपन करे, उसको दीपन कहते हैं । जैसे—“सौंफ” । जो औषधि आमको पचावे अग्निको दीपन नहीं करे, उसको पाचन कहते हैं । जैसे—“नागकेशर” । जो औषधि अग्निको भी दीपन करे और आमको भी पचावे उसको दीपनपाचन कहते हैं । जैसे—“चीता” ॥ १ ॥

न शोधयति न द्वेष्टि समान्दोषांस्त-
थोद्धतान् । समीकरोति यज्ज्ञेयं
शमनन्तद्यथाऽमृता ॥ २ ॥

जो औषधि समान वातादि दोषोंको विगाडे नहीं और न शोधन करे, किन्तु विषमदोषोंके साथ मिलकर समान दशमें प्राप्त करे, उसको शमन औषधि कहते हैं । जैसे—“गिलोय” ॥ २ ॥

कृत्वा पाकम्मलानां यद्वित्वा बन्ध-
मधो नयेत् । तच्चानुलोमनं ज्ञेयं तथा
प्रोक्ता हरीतकी ॥ ३ ॥

जो वातादि दोषोंको पचाकर बंधे हुए मलको भेदन करके उसको गुदाद्वारसे बाहर निकाल देवे, उसको अनुलोमन कहते हैं । जैसे—“हरड” ॥ ३ ॥

पक्तव्यं यदपत्तैवव श्लिष्टं कोष्ठे मला-
दिकम् । नयत्यधः संसनन्नद्यथा
स्यात् कृतमालकः ॥ ४ ॥

जो कोठेमें पाक होनेके योग्य मल और संयुक्त वातादि दोषोंको विना पचाये ही बलात्कार गुदाके द्वारा बाहर निकाले, उसको संसन औषधि कहते हैं । जैसे—“अमलतास” ॥ ४ ॥

मलादिकमबद्धं यद्वद्धं वा पिण्डितं
मलैः । भित्त्वाधः पातयेत्तद्वै भेदनं
कटुकी यथा ॥ ५ ॥

जो वातादि दोषोंसे बंधे हुए अथवा विना बंधे हुए या पिण्डाकार हुए मलमूत्रादिको अलग अलग करके गुदासे बाहर निकाले, उसको भेदन कहते हैं । जैसे—“कुटकी” ॥ ५ ॥

विपक्वं यदपक्वं वा मलादि द्रवतान्न-
येत् । रेचयत्यपि तज्ज्ञेयं रेचन त्रिवृ-
ता यथा ॥ ६ ॥

जो पक्क अथवा अपक्क अन्नादिको और मलादि
दोषोंको पतला करके गुदाद्वारासे बाहर निकाले,
उसको रेचन कहते हैं । जैसे—“निसोत” ॥ ६ ॥

अपक्वपित्तश्लेष्माणं बलादूर्ध्वं नयेत्तु
यत् । वमनं तद्धि विज्ञेयं मदनस्य
फलं यथा ॥ ७ ॥

जो बिनाही पके कफ पित्तको बलात्कारसे मुखके
द्वारा बाहर निकाले, उसको वमनसंज्ञक कहते हैं ।
जैसे—“मैनफल” ॥ ७ ॥

स्थानाद्धर्निर्गयेदूर्ध्वमधो वा मलस-
ञ्चयम् । देहे संशोधनन्तस्यादेव-
दालीफलं यथा ॥ ८ ॥

जो औषधि शरीरके यथास्थानमें संचित मला-
दिको ऊपरके भागमें लाकर मुखके द्वारा अथवा
अधोभागमें लाकर गुदाके द्वारा बाहर निकाले,
उसको संशोधन औषधि कहते हैं । जैसे—“देवदा-
लीका फल” (घघरवेल या वंदाल डोडा) ॥ ८ ॥

श्लिष्टान् कफादिकान्दोषानुन्मूलय-
ति यद्वलात् । छेदनन्तद्यथा क्षारो
मरिचानि शिलाजतु ॥ ९ ॥

जो औषधि परस्पर मिले हुए कफादि दोषोंको
अपनी शक्तिसे अलग २ कर देवे उसको छेदन
औषधि कहते हैं । जैसे—“जवाखार, कालीमिरच,
और शिलाजीत” ॥ ९ ॥

धातून्मलान्वा देहस्य विशोष्योले-
खयेच्च यत् । लेखनन्तद्यथा क्षौद्रन्नीर-
मुष्णं वचा यवाः ॥ १० ॥

जो औषधि रसादि धातु और वातादि दोषोंको
सुखाकर देहसे बाहर निकाल देवे, उसको लेखन
औषधि कहते हैं । जैसे—“शहद, गरमजल, वच
और जी” ॥ १० ॥

दीपनं पाचनं यत्स्यादुष्णत्वाद्भवशो-
षकम् । ग्राही तच्च यथा शुण्ठी जीरकं
गजपिप्पली ॥ ११ ॥

जो औषधि अग्निको दीपन करे और आमको
पचावे तथा उष्णवीर्य्य होनेसे जलरूप कफादिदोष
और धातुमलको शोषण करे, उसको ग्राही कहते हैं ।
जैसे—“सोठ, जीरा और गजपीपल” ॥ ११ ॥

रौक्ष्याच्छैत्यात्कषायत्वाल्लघुपाकाच्च
यद्भवेत् । स्तम्भकृत्स्तम्भनन्तस्या-
द्यथा टुटुकवत्सकौ ॥ १२ ॥

जो औषधि रूक्ष, शीत, कषाय और लघु-
पाकी होनेसे स्तम्भता उत्पन्न करे, उसको स्तम्भन
औषधि कहते हैं । जैसे—“स्यानाक और
कुडा” ॥ १२ ॥

रसायनञ्च तज्ज्ञेयं यज्जराव्याधिना-
शनम् । यथाऽमृता रुदन्ती च गुग्गु-
लुश्च हरीतकी ॥ १३ ॥

जो औषधि जरा (वृद्धता) और व्याधि (रोग)
को दूर करे, उसको रसायन कहते हैं । जैसे—
“गिलोय, रुदन्ती, गूल और हरड़” ॥ १३ ॥

यस्माद्द्रव्याद्भवेत् स्त्रीषु हर्षो वाजी-
करश्च तत् । यथा नागबलाद्याः स्यु-
र्बीजश्च कपिकच्छुजम् ॥ १४ ॥

जिस औषधिसे शरीरमें धातु बढ़कर स्त्रियोंमें
आनन्द उत्पन्न हो उसको वाजीकरण कहते हैं ।
जैसे—“गंगोरनके बीज और कौछके बीज,” ॥ १४ ॥

यस्माच्छुक्रस्य वृद्धिः स्याच्छुक्रल-
ञ्च तदुच्यते । यथाश्वगन्धा मुशली
शर्करा च शतावरी ॥ १५ ॥

जिस औषधिसे वीर्यकी वृद्धि हो, उसको शुक्र
वर्धक कहते हैं । जैसे—“असगन्ध, मुसली, मिश्री
और शतावर” ॥ १५ ॥

प्रवर्तकानि कथ्यन्ते जनकानि च रे-
तसः । दुग्धं माषाश्च भल्लातफलम-
जाऽऽमलानि च ॥ १६ ॥

जो औषधियाँ वीर्य्यको उत्पन्न करके प्रवर्तन
करें अर्थात् कामको दीपन करें, उनको धातुचेतन
जानना । जैसे—“दूध उडद, भिलोवेकी गिरी
और आमले” ॥ १६ ॥

प्रवर्तनी स्त्री शुक्रस्य रेचनं बृहतीफलम् । जातीफलं स्तम्भनं रघात् का-
विन्दं क्षयकारि च ॥ १७ ॥

स्त्री वीर्यको प्रवर्तन करती है । बड़ी कटेरीका फल वीर्यको रेचन करता है । जायफल वीर्यको स्तम्भन करता है । और तरवूज वीर्यको नष्ट करता है ॥ १७ ॥

देहस्य सूक्ष्मच्छिद्रेषु विशेषतः सूक्ष्ममु-
च्यते । तद्यथा सैन्धवं क्षौद्रं निम्ब-
स्तैलं रुवद्भवम् ॥ १८ ॥

जो शरीरके सूक्ष्म रोमकूपोंके द्वारा शरीरमें प्रवेश करे उसको सूक्ष्म लहते है । जैसे—“सैधानमक शहद, नीमका तेल, और अण्डीका तेल” ॥ १८ ॥

पूर्वं व्याप्याखिलं कार्यं ततः पाकश्च
गच्छति । व्यवायि तद्यथाभङ्गा फेनं
चाहिसमुद्भवम् ॥ १९ ॥

जो औषधि सम्पूर्ण शरीरमें पचनेसे पहलेही व्याप्त होकर फिर पचती है, उसको व्यवायी कहते हैं । जैसे—“भाग, अफीम” ॥ १९ ॥

सन्धिबन्धास्तु शिथिलान् यत्करो-
ति विकाशि तत् । विश्लेष्यौजश्च धा-
तुभ्यो यथाक्रममुककोद्रवौ ॥ २० ॥

जो शरीरकी सन्धियोंके बंधनों और धातुओके ओजको सुखाकर शिथिल करे, उसको विकाशी कहते है । जैसे—“सुपारी, कोदों ” ॥ २० ॥

बुद्धिं लुम्पति यद्रव्यं मदकारी तद्-
च्यते । तमोगुणप्रधानश्च यथा मद्यं
सुरादिकम् ॥ २१ ॥

जो द्रव्य तमोगुणकी प्रधानतासे बुद्धिको लुप्त करे उसको मदकारी कहते है । जैसे—“मादिरा, सुरादि ” ॥ २१ ॥

व्यवायि च विकाशि स्यात् सूक्ष्म-
च्छेदि मदावहम् । आग्नेयं जीवितहरं
योगवाहि स्मृतं विषम् ॥ २२ ॥

जो पदार्थ व्यवायी, विकाशी, सूक्ष्म, छेदन, मादक आग्नेय और योगवाही हो उसको प्राणनाशक जानना जैसे—“विष ” ॥ २२ ॥

निजवीर्येण यद्रव्यं स्रोतोभ्यो दो-
पसञ्चयम् । निरस्यति प्रमाथि रया-
त्तद्यथा मारिचं वचा ॥ २३ ॥

जो द्रव्य अपनी शक्तिसे मुख और नासिकाके द्वारा कफादि दोषोंको बाहर निकाले उसको प्रमाथी कहते है । जैसे—“ मिरच और वचा ” ॥ २३ ॥

पिच्छिल्याद्गौरवाद्द्रव्यं रुद्धा रसवहाः
शिराः । धत्ते यद्गौरवं तत्स्यादभि-
प्यन्दि यथा दधि ॥ २४ ॥

जो द्रव्य अपनी पिच्छिलता और गुरुतासे रसको वहानेवाली नाडियोंको रोककर शरीरमें भारीपन करता है, उसको अभिप्यन्दि कहते हैं । जैसे—“ दही ” ॥ २४ ॥

इति श्रीवङ्गसेने भाषाटीकाया दीपनपाचनादि-
लक्षणाधिकार समाप्त ॥ ९५ ॥

वङ्गसेनोत्पत्ति ।

श्रीकृष्णः पृथिवीं निजांघ्रिकमला-
ऽरोगीकृतां हा यदा त्यक्त्वा धाम-
निजं गतस्तत इयं मह्यल्पकालान्त-
रे ॥ जाता रोगवती पुनर्भयकरी दृ-
ष्ट्वा तदा तामहं लब्ध्वैवाशुजनिं
गदाधरगृहे चक्रे च नीरोगिकाम् ॥ १ ॥
भूमावागमनश्च मे सुभिषजो ज्ञास्य-
न्ति सर्वे कथमित्येवं सुविचार्य वै
क्षितितले स्वीयामिमां संहिताम् ॥
लोकानां हितकाम्यया स्वयशसे
सुस्थापयित्वा ततो वैद्यानां प्रभु-
ताकरीश्च गमनं याम्याश्रमं मे कृत-
म् ॥ २ ॥ अगस्तिसंहितेयं प्राक्
ख्याता मज्जन्मतस्ततः । गदाधरगृहे
जन्म लब्ध्वा मे संस्कृता पुनः ॥ ३ ॥
वङ्गसेन इति नाम्ना विख्यातस्तद-

नन्तरम् । ग्रन्थोऽयं सर्वसिद्धान्तसा-
रः शीघ्रफलप्रदः ॥ ४ ॥

इति श्रीमद्वैद्यगदाधरात्मजसद्वैद्यविद्याचार्यश्रीव-
ङ्गसेनविरचितो वङ्गसेनाह्वयो ग्रन्थः समाप्तः ॥

जब श्रीकृष्ण अपने चरणकमलोंके प्रभावसे
आरोग्य की हुई इस पृथिवीको त्यागकर वैकुण्ठ
लोकको चले गये तब अल्प कालके पश्चात् ही यह
पृथ्वी भयंकर रोगोंसे युक्त हो गई । तब ऐसी
रोगवाली और भयंकरक पृथिवीको देखकर मैंने
गदाधरके घरमें शीघ्र जन्म लेकर इस पृथ्वी को
आरोग्य किया । सम्पूर्ण वैद्य पृथिवीपर मेरे आगमन
को किसप्रकार जानेंगे, ऐसा विचारकर मैंने आरो-
ग्यताको करनेवाली और वैद्योंको प्रभुता प्राप्त कराने-
वाली अपनी इस “वङ्गसेन संहिता” को पृथिवीके
समस्त लोकोंके हितकी कामनासे और अपनेयज्ञकी
प्राप्तिके लिये निर्माण किया । पश्चात् इस संहिताको
बनाकर मैंने परलोकको प्रयाण किया । यह मेरे
जन्मसे पहिले “अगस्तिसंहिता” इस नामसे संसा-
रमें प्रसिद्ध थी । फिर मैंने गदाधरके घरमें जन्म
लकर इसका प्रति संस्कार किया तबसे यह ग्रन्थ
“वगसेन” इस नामसे प्रसिद्ध हुआ । यह “वग-
सेन” ग्रन्थ सम्पूर्ण ग्रन्थोंका सारभूत और शीघ्र
फलदेनेवाला है ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥

अथ टीकाकारोक्तविज्ञतिवर्णनम् ।

सद्वैश्यवंशे सवितासमानो गुणाकरः
सर्वकलास्वभिज्ञः । शिरोमणिः
सज्जनगोष्ठिमध्ये धीरोऽथ वीरो मह-
नीयकीर्तिः ॥ १ ॥

सत्साहसी धर्मविदां वरिष्ठो विका-
सकः काव्यसरोरुहाणाम् । पुरातनमे-
कोऽभवदत्र शलिग्रामाभिधानः पुरि
(मुरादावादे) माथुराग्र्यः ॥ २ ॥

यस्मिन्स्थिते पुरुषसिंहवरेऽवनौ स-
त्ख्यातिअगाम खलु माथुरजातिर-
श्याम् । यत्कीर्तिरुज्ज्वलतरा भुवि
भारतेऽस्मिन्साहित्यरङ्गनवसंस्थलगा
ऽऽविरस्ति ॥ ३ ॥

विश्वोपकारकरणाय स सद्गुणाग्र्यः
कार्यार्ण्यनेकगतिकानिचकार भूयः।
यस्य प्रभूतसमयोऽवितथः परोपका-
रार्थ एव समभूद्विषजां वरस्य ॥ ४ ॥

यश्चासहायजनतासु सहायतां द्रागा-
पामरश्च विगतस्पृह आर्त्तबन्धुः ।
रोगापनोदनविधौ कृतवान्प्रयत्नः
सम्यक् चिकाय च यशो विततं
पृथिव्याम् ॥ ५ ॥

यश्चानेकविधानि काव्यकुतुकान्या-
स्थाप्य सत्राटकान्यन्यान्यप्यतिगूढ-
भावघटितान्याचष्ट शास्त्राण्यहो ।
यश्चैको निबबन्ध शुन्धनपरःसद्धर्मशा-
स्त्राणि यान्यादत्तव्यतया विदां पुर
इतान्येतर्हि सञ्जादते ॥ ६ ॥

कृत्वा चैतान्यासवय्योऽयमन्ते आयु-
र्वेदोद्धारकोऽभूद्यदत्र । प्राचीनायुर्वे-
दशास्त्राण्यजस्रमालोच्यार्वाचीनग्र-
न्थप्रतीकैः ॥ ७ ॥

नानाकारान्वैद्यकग्रन्थवय्यार्न्सभ्रग्रा-
ह्यानुचिवाग्निर्ममे च । येऽद्यत्वे
सद्वैद्यहृद्यासते द्राक्कुर्वन्तोऽपूर्वश्चम-
त्कारभावम् ॥ ८ ॥

प्रायोऽगाधधियामुनाऽथ सकले सद्वैद्य-
केऽनूदितुं, निर्मातुश्च पुरा मनो वि-
निहितं किन्त्वेष काले बली । सर्वा-
शी नहि कस्यचिद्व्यवसितिं सर्वा-
त्मना पूरितुं, रातीत्येष तदीयदन्तप-
तितो यक्षमार्दितोऽबोभवीत् ॥ ९ ॥

तत्रैव सति वङ्गसेनलिखितं ग्रन्थं पु-
रानूदितुं प्रक्रम्याऽमुमथात्मनोऽन्ति-
मसवं ज्ञात्वा तुकम्प्याह माम् । नो-
ल्लाघो भवितास्म्यतस्त्वमथ मे सर्वा-
कृतिं पूरयेः, निर्मातुं प्रकृतां मनस्यव-
हिताश्चेत्यस्ति कामो मम ॥१०॥

सोऽहन्तस्य निदेशमाशु शिरसा
सन्धार्य सर्वात्मना, सञ्चिन्त्याथ
समस्तग्रन्थहृदयं सद्भाषयानूचिवान्॥
आशासेऽन्यमपि प्रकृत्य निहितं
तस्यानुवक्तुं स्फुटं कालेन प्रभवामि
भक्षु क्रियता सम्पूरितुं यत्नतः ॥११॥
काहं मन्दमतिः कचायमतिसंक्लिष्टोऽत
एतस्य वै, सद्भाषानुवचोविधौ स्व-
लतिका चेत्कापि चित्रं न तत् ।
क्षस्यंते गुणगृधनवः सहृदयाः प्रोत्साह्य
मां तां पुनर्येनाहं भिषजां पुरः प्रभवि-
तास्म्यन्यानपि प्रार्पितुम् ॥ १२ ॥
यद्यप्यमुष्य कृतिनस्तनयो न चाभूत्
किन्त्वस्ति शीलनिधिरात्मसमो वि-
नीतः॥ पुत्रादपि प्रियतमो दुहितुः सुतः
श्रीकल्याण कोटिनिलयो हरिशं-
कराख्यः ॥ १३ ॥
योऽयं तदीयसविधे चिरमूषिवान्सं-
प्रापाथ शिक्षणमनुत्तममेतदीयम् ।
मां ज्येष्ठभ्रातृवदनुक्षणमेष धीमान्
सर्वत्र सम्परिचरन्ददतेऽथ साह्यम् ॥१४॥
आयुर्वेदोद्धारकाख्यं पुरा ये तेनागारं
निर्मितं स्वौषधस्य ॥ तत्रोपस्थायाथ
नित्यञ्च तद्द्रोगतैर्भ्योऽमूल्यमेवो-
षधानि ॥ १५ ॥

आवां दद्रोयेन तुल्यं न चात्रास्त्यागारं
कस्यापि सत्स्वौषधस्य । श्रीमानीश-
स्तस्य पुण्यप्रभावादेतत्कुर्व्यात्स्थायि
यावन्नगोर्वि ॥ १६ ॥

यावत्खे रविशशलाञ्छनौ धरायां स-
प्ताम्भोनिधय इहासते च तावत् ।
रोदस्योरविरतमेधिता तदीया स-
त्कीर्त्तिव्रततिरविप्लवाऽऽविरस्तु ॥१७॥
ग्रामेऽथ कुन्दरखिनाम्नि गृहीतजन्मा
सन्मानितो गुणचयाञ्चितपादपद्मः ।
खाण्डेलवालकुलसम्भव आतवर्यः श्री-
भोजदेव इति यः प्रथितः पृथिव्याम् १८
तस्यात्मजोऽजनि सनातनजैनधर्मा
विक्रिकरश्च खलु शंकरलालनामा ।
मातुःपितुःपरिचरश्चरणौ मुरादाबाद
समागत इहार्त्तजनोपकृत्यैः ॥ १९ ॥
स स्वेष्टदेवकूपयाथ गुरोः प्रसादा-
त्क्षमाषणनवावनिमिते शुदि वैक्रमे-
ऽब्दे । चन्द्रे शुचावहितिथौ निजम-
न्दमत्या श्रीवङ्गसेनकृतमेतदनुचि-
वान्वै ॥ २० ॥

इति श्रीमदायुर्वेदोद्धारकविक्रिल्लूडामणिमुरादाबाद
निवासी लालशालिग्रामजीवैद्यकृत एव कुन्दरखी
ग्रामनिवासी श्रीभोजदेवतनय शंकरलालवैद्य-
परिपूरितवगसेन भाषाटीका समाप्त ।

समाप्तोऽयं ग्रन्थः ।

पुस्तक मिलनेका ठिकाना-


खेमराज श्रीकृष्णदास,

“ श्रीवेंकटेश्वर ” (स्टीम्) प्रेस, खेतवाडी-बंबई,

KHEMRAJ SHRIKRISHNDAS.

Proprietor Shri Venkateshwar Steam Press,--BOMBAY.

ऋष्य पुस्तक ।



नाम	की.	रु.आ
करावादीनइहसानी-भाषा यूनानी चिकित्सा नामी पुस्तक है		१-८
कोकसार वैद्यक सचित्र-कोकपाण्डित कृत वैद्यक ग्रन्थोंका सार यह उत्तम बृहद् वैद्यक ग्रन्थ तैयार हुआ है आज तक ऐसा और कहीं नहीं छपा था	...	२-०
खूबचन्दीचिकित्सा-(वैद्यकसार) लाला खूबचन्द आनरेरी मजिस्ट्रेटके ४० वर्षकी अनुभव की हुई तत्काल गुणप्रद स्त्री, पुरुष और बच्चों के लिये उपयोगी एकसे एक बठकर १२२ तुस्खोंका पुस्तक	०--१४
चिकित्सासमूह-अर्थात् घरू और सफरी वैद्य । इसमें मनुष्य, घोडा, ऊँट, हाथी, गाय, बैल और भैंसियोंके रोग और उनकी अनुभूत औषधि लिखी हुई हैं यह उपयोगी पुस्तक प्रत्येक गृहस्थके पास रहनी चाहिये	१-४
चिकित्साचन्द्रोदय-अर्थात् करावादीनजुकाई तिब्बइहसानी-यूनानी वैद्यकके मतसे तुस्खे और विषचिकित्साका वर्णन है	२--८
पाकविलास-नृप जयेदवात्मज श्रीपञ्चमसिंहकृपापात्र श्रीसाहनिर्मित नानाप्रकारके भोज्य बनानेकी विधि है	०--८
पारदसंहिता-भाषाटीका समेत । पारदके सिद्ध होजानेसे मनुष्य अजर अमर होसकता है रोगनाश होकर निरोग देह होना तो साधारण बात है, हजारों रुपयेके व्यय और अनेक वर्षोंके निरन्तर अनुभव करनेसे यह ग्रन्थ तैयार हुआ है, वैद्योका तो सर्वस्व है शीघ्र मंगाकर लाभ उठाइए	१२-०
फिरङ्गादर्श-आतशक रोग गर्मी, जुजाक इलाज भावप्रकाशनिघण्टु-टिप्पणीसहित । बडा प्रमाणिक ग्रन्थ है अङ्गरेजी हिन्दी बँगला आदि भाषामें भी औषधियोंके नाम दिये हैं	२-०
भावप्रकाश मूल-नूतनमुद्रित । इसबार बड़े बड़े वैद्योंसे शोधन कराकर छपा गया है	५-०
माधवनिदान-मधुकोष और आतंकदर्पण दो टीका सहित	५-०
रसेन्द्रसारसंग्रह-भाषाटीकासहित तीन खण्डोंमें १ खण्डमें रस, उपरस, धातु उपधातुओंके मारण शोधन जारण आदि विधि है २ य तथा ३ य खण्डोंमें उन्हीं रसादिसे सम्पूर्ण रोगोंकी चिकित्सा		

नाम	कामत	रु. आ.
वर्णितहे यह ग्रन्थ बडाप्राधाणिक और वेदोंकी परीक्षामेंनियुक्त है		४
वन्ध्याकल्पद्रुम अर्थात् स्त्रीचिकित्सा समूह चारोंभाग—जिसकी लोगोंको बहुत दिनोंसे उत्कण्ठा थी	१२--०
विषतन्त्र चिकित्साप्रकाश भाषाटीका—प्रायः सभी विषोंकी चिकित्साओंका संग्रह	१४--०
वैद्यमनोरमा और धाराकल्प-भाषाटीका सहित । सुलभ जडी बूटी आदि औषधियो द्वारा बडी लाभप्रद चिकित्सा वर्णित है और धारा-विधिसे सरल और उत्तम विधिसे चिकित्सा है	१--०
वैद्यविनोदसंहितामूल--(प्राचीन चिकित्साग्रन्थ) परमोपयोगी है	...	१--१२
व्यञ्जनपाकप्रदीप-पांचो भाग । नाना प्रकारकी मिठाईं मुरब्बा, पूरी, दाल, भात आदि बनानेकी उत्तम विधि	१--८
हितोपदेश वैद्यक भाषाटीका--(जैनाचार्य श्रीकण्ठजी रचित) नाडी-विषम प्रायः सभी ग्रन्थोंसे विशेष वर्णित है	१--१२
अष्टाङ्गहृदय--(वाग्भट) मूल मोटा अक्षर वाग्भट्टविरचित.		५--०
अष्टाङ्गहृदय--(वाग्भट) वाग्भट्टविरचित तथा पं० रविदत्त-कृत भाषाटीकासहित और पं० ज्वालाप्रसादजी मिश्र संशोधित । जिसमें--सूत्रस्थान, शारीरस्थान, निदानस्थान, चिकित्सास्थान, कल्पस्थान, उत्तरस्थान, इत्यादिमें, सपूर्ण रोगोंकी उत्पत्ति, निदान, लक्षण और काथ, चूर्ण, रस, घी, तैल आदिसे अच्छी प्रकार चिकित्सा वर्णित है.	१०--०
अमृतसागर--हिन्दीभाषामें--बिना गुरु छोटे नगरोंमें दवाखाना करसक्ते हैं । इसमें सर्व रोगोंके वर्णन और यत्न लिखे गये हैं । ग्लेज कागज.	३--८
” तथा रफ कागज.	३--०
अर्कप्रकाश--(रावणकृत) भाषाटीकासमेत । इसमें नाना-प्रकारके यन्त्रोंसे औषधियोंका अर्क खींचना और गुण-वर्णन भलीप्रकार किया गया है. ग्लेज कागज.	१--८
” तथा रफ कागज	१--४

पता--

खेमराज श्रीकृष्णदास,
“ श्रीवेकटेश्वर ” स्टीम-प्रेस,
बम्बई.

तथा--

गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास,
“ लक्ष्मीवेकटेश्वर ” स्टीम-प्रेस,
कल्याण-बम्बई.

